

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



क्रम संख्या

काल नं०

मार्ग



# धम्मशास्त्र

अर्थात्

पुराना और नया धम्म नियम

ब्रिटिश एण्ड फ़ारेन् बाइबल सोसाइटी

इलाहाबाद

१९४०

**HOLY BIBLE  
IN HINDI**

**1940**

**8,700 Copies**

**Printed by K. Mitra, at The Indian Press, Ltd., Allahabad.**

# पुराने और नये धर्म नियम

## की पुस्तकों के नाम

और

## उन का सूचीपत्र और पन्नों की संख्या

### पुराने नियम की पुस्तकें ।

| पुस्तकों के नाम ।                      | अध्याय । | पुस्तकों के नाम ।           | अध्याय । |
|--|----------|-----------------------------|----------|
| उत्पत्ति नाम पुस्तक ... ..             | ... ५०   | सभोपदेशक ... ..             | ... १२   |
| निर्गमन " ... ..                       | ... ४०   | श्रेष्ठगीत ... ..           | ... ८    |
| लैव्यव्यवस्था " ... ..                 | ... २७   | यशायाह नाम पुस्तक ... ..    | ... ६६   |
| गिनती " ... ..                         | ... ३६   | यिर्मयाह नाम पुस्तक ... ..  | ... ५२   |
| व्यवस्थाविवरण नाम पुस्तक ... ..        | ... ३४   | विलापगीत ... ..             | ... ५    |
| यहोशू नाम पुस्तक ... ..                | ... २४   | यहेजकेल नाम पुस्तक ... ..   | ... ४८   |
| न्यायियों का वृत्तान्त ... ..          | ... २१   | दानिय्येल नाम पुस्तक ... .. | ... १२   |
| रूत नाम पुस्तक ... ..                  | ... ४    | देशे ... ..                 | ... १४   |
| शमूएल नाम पहिली पुस्तक ... ..          | ... ३१   | योएल ... ..                 | ... ३    |
| शमूएल नाम दूसरी पुस्तक ... ..          | ... २४   | आमोस ... ..                 | ... ९    |
| राजाओं का वृत्तान्त । पहिला भाग ... .. | ... २२   | ओबद्याह ... ..              | ... १    |
| राजाओं का वृत्तान्त । दूसरा भाग ... .. | ... २५   | येना ... ..                 | ... ४    |
| इतिहास नाम पुस्तक । पहिला भाग ... ..   | ... २९   | मीका ... ..                 | ... ७    |
| इतिहास नाम पुस्तक । दूसरा भाग ... ..   | ... ३६   | नहूम ... ..                 | ... ३    |
| एज़्रा, " ... ..                       | ... १०   | हबककूक ... ..               | ... ३    |
| नहेम्याह " ... ..                      | ... १३   | सपन्याह ... ..              | ... ३    |
| एस्तेर " ... ..                        | ... १०   | हागै ... ..                 | ... २    |
| अय्यूब " ... ..                        | ... ४२   | जकर्याह ... ..              | ... १४   |
| भजनसंहिता ... ..                       | ... १५०  | मलाकी ... ..                | ... ४    |
| नीतिवचन ... ..                         | ... ३१   |                             |          |

# उत्पत्ति नाम पुस्तक ।

(सृष्टि का वर्णन)

१. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथिवी को सिरजा । और पृथिवी रूनी और सुनसान पक्षी थी और गहरे जल के ऊपर अन्धियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर ऊपर मण्डलाता था । तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो सो उजियाला हो गया । और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले और अन्धियारे को अलग अलग किया । और परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अन्धियारे को रात कहा और सांभ हुई फिर भोर हुआ सो एक दिन हो गया ॥

६ फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा एक अन्तर हो कि जल दो भाग हो जाये । सो परमेश्वर ने एक अन्तर करके उस के नीचे के जल और उस के ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया ।

८ और परमेश्वर ने उस अन्तर को आकाश कहा और सांभ हुई फिर भोर हुआ सो दूसरा दिन हो गया ॥

९ फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे और वैसा ही हो गया । और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथिवी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ उस को उस ने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है । फिर परमेश्वर ने कहा पृथिवी से हरी घास और बीजवाले छोटे छोटे पेड़ और फलदाई वृक्ष भी जा अपनी अपनी जाति के अनुसार फलें और जिन के बीज पृथिवी पर उन्हीं में हों उगें और वैसा ही हो गया । सो पृथिवी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिन में अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदाई वृक्ष जिन के बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में हाते हैं सो उगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है । और सांभ हुई फिर भोर हुआ सो तीसरा दिन हो गया ॥

१४ फिर परमेश्वर ने कहा दिन और रात अलग अलग करने के लिये आकाश के अन्तर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और बरसों के कारण हों । और वे ज्योतियां आकाश के अन्तर में पृथिवी पर प्रकाश देनेहारी भी ठहरे और वैसा ही हो गया । सो परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई उन में से बड़ी ज्योति ती दिन पर प्रभुता करने के लिये और छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिये और तारागण को भी बनाया ।

और परमेश्वर ने उन को आकाश के अन्तर में इस लिये रक्खा कि वे पृथिवी पर प्रकाश दें । और दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले और अन्धियारे को अलग अलग करें और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है । और सांभ हुई फिर भोर हुआ सो चौथा दिन हो गया ॥

फिर परमेश्वर ने कहा जल जीते प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथिवी के ऊपर आकाश के अन्तर में उड़े । सो परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल-जन्तुओं को और उन सब जीते प्राणियों को भी सिरजा जो चलते हैं जिनसे जल बहुत ही भर गया और एक एक जाति के उड़नेहारे पक्षियों को भी सिरजा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है । और परमेश्वर ने यह कहके उन को आशिष दी कि फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथिवी पर बढें । और सांभ हुई फिर भोर हुआ सो पांचवां दिन हो गया ॥

फिर परमेश्वर ने कहा पृथिवी से एक एक जाति के जीते प्राणी उत्पन्न हों अर्थात् धरैले पशु और रेंगनेहारे जन्तु और पृथिवी के बनैले पशु जाति जाति के अनुसार और वैसा ही हो गया । सो परमेश्वर ने पृथिवी के जाति जाति के बनैले पशुओं को और जाति जाति के धरैले पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगनेहारे जन्तुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है । फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और धरैले पशुओं और सारी पृथिवी पर और सब रेंगनेहारे जन्तुओं पर जो पृथिवी पर रेंगते हैं अधिकार रक्खें । सो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार सिरजा अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको सिरजा नर और नारी करके उस ने मनुष्यों को सिरजा । और परमेश्वर ने उन को आशिष दी और उन से कहा फूलों फलों और पृथिवी में भर जाओ और उस को अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथिवी पर रेंगनेहारे सब जन्तुओं पर अधिकार रक्खो । फिर परमेश्वर ने उन से कहा सुनो जितने बीजवाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथिवी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीजवाले फल होते हैं सो सब मैं ने तुम को दिये हैं वे तुम्हारे भोजन के लिये हैं । और जितने पृथिवी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथिवी पर रेंगनेहारे जन्तु हैं जिन में जीवन का

प्राण है उन सब के खाने के लिये मैं ने सब हरे हरे छोटे  
११ पैड़ दिये हैं और बैसा ही हो गया । और परमेश्वर ने  
जो कुछ बनाया था सब को देखा तो क्या देखा कि वह  
बहुत ही अच्छा है और सांभ हुई फिर भोर हुआ सो  
छठवां दिन हो गया ॥

२. यौ आकाश और पृथिवी और उनकी सारी सेना  
का बनाना निपट गया । और परमेश्वर ने  
सातवें दिन अपना काम जो वह करता था निपटा दिया  
सो सातवें दिन उस ने अपने किये हुए सारे काम से  
३ विश्राम किया । और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशिष  
दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उस में उस ने सृष्टि के  
अपने सारे काम से विश्राम किया ॥

(मनुष्य की उत्पत्ति)

४ आकाश और पृथिवी की उत्पत्ति का वृत्तान्त यह है  
कि जब वे सिरजे गये अर्थात् जिस दिन यहोवा परमेश्वर  
५ ने पृथिवी और आकाश को बनाया । तब मैदान का कोई  
झाड़ भूमि में न हुआ था और न मैदान का कोई छोटा  
पेड़ उगा था क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथिवी पर जल  
न बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिये मनुष्य  
६ न था । तौ भी कुहरा पृथिवी से उठता था जिस से सारी  
७ भूमि सिंच जाती थी । और यहोवा परमेश्वर ने आदम<sup>१</sup>  
को भूमि की मिट्टी से रचा और उस के नयनों में जीवन  
का श्वास फूंक दिया और आदम<sup>२</sup> जीता प्राणी हुआ ।  
८ और यहोवा परमेश्वर ने पूरब ओर एदेन देश में एक  
९ बारी लगाई और वहां आदम<sup>३</sup> को जिसे उस ने रचा था  
रख दिया । और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति  
के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिन के फल खाने में  
१० अच्छे हैं उगाये और जीवन के वृक्ष को बारी के बीच में  
और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया । और उस  
बारी के सींचने के लिये एक महानद एदेन से निकलता  
था और वहां से आगे बहकर चार धार हो गया ।  
११ पहिली धारा का नाम पीशोन है यह वही है जो हवीला  
१२ नाम सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है । उस  
देश का सोना चोखा होता है और वहां मांती और सुलै-  
१३ मानी पत्थर भी मिलते हैं । और दूसरी नदी का नाम  
गीहोन है यह वही है जो कूश सारे देश को घेरे हुए है ।  
१४ और तीसरी नदी का नाम हिहेकेल है यह वही है जो  
१५ अरशर की पूरब ओर बहती है और चौथी नदी का नाम  
१६ परात है । जब यहोवा परमेश्वर ने आदम<sup>३</sup> को लेकर  
एदेन की बारी में रख दिया कि वह उस में काम करे और

(१) मूल में. की बंशावली । (२) वा. मनुष्य । (३) मूल में. बट के चार सिर ।

यह आज्ञा दी कि बारी के सब वृक्षों का फल तू बिना खटके  
खा सकता है । पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है १७  
उस का फल तू न खाना क्योंकि जिस दिन तू उस का  
फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा ॥

फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम<sup>१</sup> का अकेला १८  
रहना अच्छा नहीं मैं उस के लिये ऐसा एक सहायक  
बनाऊंगा जो उस से मेल खाए । और यहोवा परमेश्वर १९  
भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के  
सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम<sup>२</sup> के पास ले आया  
कि देखे कि वह उन का क्या क्या नाम रखेगा और  
जिस जिस जाति प्राणी का जो जो नाम आदम<sup>३</sup> ने रखा  
सोई उस का नाम पड़ा । सो आदम<sup>३</sup> ने सब जाति के २०  
घरैले अशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति  
के बनैले पशुओं के नाम रखे पर आदम के लिये ऐसा  
कोई सहायक न मिला जो उस से मेल खाए । तब यहोवा २१  
परमेश्वर ने आदम<sup>३</sup> को भारी नींद में डाल दिया और  
जब वह सो गया तब उस ने उस की एक पसुली निकाल  
कर उस की सन्ती मांस भर दिया । और यहोवा परमेश्वर २२  
ने उस पसुली को जो उसने आदम<sup>३</sup> में से निकाली थी  
खी बना दिया और उस का आदम<sup>३</sup> के पास ले आये ।  
और आदम<sup>३</sup> ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी २३  
और मेरे मांस में का मांस है सो इस का नाम नारा होगा  
क्योंकि यह नर में से निकाली गई । इस कारण पुरुष २४  
अपने माता पिता को छोड़कर अपनी स्त्री में मिला रहेगा  
और वे एक ही तन बने रहेंगे । और आदम<sup>३</sup> और उस २५  
की स्त्री दोनों नगे तौ धं पर लजाते न थे ॥

(मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन)

३. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाये थे  
सब में से सर्प धूस था और उस ने स्त्री  
से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस  
बारी के किसी वृक्ष का फल न खाना । स्त्री ने सर्प से कहा २  
इस बारी के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं । पर जो वृक्ष ३  
बारी के बीच में है उस के फल के विषय परमेश्वर ने  
कहा कि तुम उस को न खाना न उस को छूना भी नहीं  
तो मर जाओगे । तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ४  
न मरोगे । बरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन ५  
तुम उस का फल खाओ उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल  
जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के  
तुल्य हो जाओगे । सो जब स्त्री को ज्ञान पड़ा कि उस ६  
वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और  
हुड्डी देने के लिये चाहने योग्य भी है तब उस ने उस

(१) वा. मनुष्य ।

में से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया और उस  
 ७ ने भी खाया । तब उन दोनों की आँखें खुल गईं और  
 उन को जान पड़ा कि हम नंगे हैं सो उन्होंने अजीर के  
 ८ पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिये । पीछे, यहोवा परमे-  
 श्वर जो सांभ के समय<sup>२</sup> बारी में फिरता था उस का  
 शब्द उन को सुन पड़ा और आदम और उस की स्त्री बारी  
 ९ के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गये । तब  
 यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा तू कहां है ।  
 १० उस ने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया  
 ११ क्योंकि मैं नंगा था इस लिये छिप गया । उस ने कहा  
 किस ने तुझे चिताया कि तू नंगा है जिस वृक्ष का फल  
 खाने को मैंने तुझे बर्जा था क्या तू ने उस का फल खाया  
 १२ है । आदम ने कहा जिस स्त्री को तू ने मेरे संग रहने को  
 दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया सो मैं ने खाया ।  
 १३ तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तू ने यह क्या किया  
 है स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया सो मैं ने खाया ।  
 १४ तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तू ने जो यह किया  
 है इस लिये तू सब घरेले पशुओं और सब बनेले पशुओं  
 से अधिक स्थापित है तू पेट के बल चला करेगा और  
 १५ जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा । और मैं तेरे और इस स्त्री  
 के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर  
 उपजाऊंगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उस  
 १६ की एड़ी को कुचल डालेगा । फिर स्त्री से उस ने कहा मैं  
 तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुःख को बहुत बढ़ाऊंगा  
 तू पीड़ित होकर बालक जनेगी और तेरी लालसा तेरे पति  
 १७ की और होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा । और  
 आदम से उस ने कहा तू ने जो अपनी स्त्री की सुनी  
 और जिस वृक्ष के फल के विषय मैं ने तुझे आज्ञा दी थी  
 कि तू उसे न खाना उस को तू ने खाया है इस लिये  
 भूमि तेरे कारण स्थापित है तू उस की उपज जीवन  
 १८ भर दुःख के साथ खाया करेगा । और वह तेरे लिये कांटे  
 और अंतकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा ।  
 १९ और अपने माथे के पसीना गारे की रोटी तू खाया करेगा  
 और अन्त में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में  
 से निकाला गया तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर  
 २० मिल जाएगा । और आदम ने अपनी स्त्री का नाम  
 हव्वा<sup>३</sup> रक्खा क्योंकि जितने मनुष्य जीते हैं उन सब की  
 २१ आदिमाता वही हुई । और यहोवा परमेश्वर ने आदम  
 और उस की स्त्री के लिये चमड़े के अंगरखे बनाकर उन  
 को पहिना दिये ॥  
 २२ फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का

(१) मूल में. दिन की बाधु में । (२) अर्थात् जीवन ।

ज्ञान पाकर हम में से एक के समान ही गया है सो अब  
 ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल  
 भी तोड़के खाए और सदा जीता रहे । सो यहोवा २३  
 परमेश्वर ने उस को एदेन की बारी में से निकाल दिया  
 कि वह उस भूमि पर खेती करे जिस में से वह बनाया<sup>४</sup>  
 गया था । आदम को तो उस ने बरबस निकाल दिया २४  
 और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिये एदेन  
 की बारी की पूरब ओर करुबों को और चारों ओर घूमती  
 हुई ज्वालामय तलवार को भी ठहरा दिया ॥

(आदम के पुत्रों का वर्णन)

४. जब आदम ने अपनी स्त्री हव्वा से प्रसंग किया तब  
 वह गर्भवती होकर कैन को जनी और कहा  
 मैं ने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है । फिर वह २  
 उस के भाई हाबिल को भी जनी और हाबिल तो भेड़  
 बकरियों का चरवाहा हुआ पर कैन भूमि की खेती करने-  
 हारा हुआ, कुछ दिन बीते पर कैन यहोवा के पास भूमि ३  
 की उपज में से कुछ भेंट ले आया । और हाबिल भी ४  
 अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौटे बच्चे भेंट करके  
 ले आया और उन की चर्बी चढ़ा तब यहोवा ने हाबिल  
 और उस की भेंट का तो मान किया । पर कैन और उस ५  
 की भेंट का उस ने मान न किया तब कैन अति क्रोधित  
 हुआ और उस के मुंह पर उदासी छा गई । तब यहोवा ६  
 ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर  
 उदासी क्यों छा गई है । यदि तू भला करे तो क्या तेरी ७  
 भेंट ग्रहण न की जाएगी और यदि तू भला न करे तो पाप  
 द्वार पर दबका रहता है और उस की लालसा तेरी और  
 होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा । पीछे कैन ने अपने ८  
 भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब  
 कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया ।  
 तब यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहां है उस ९  
 ने कहा मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला  
 हूँ । उस ने कहा तू ने क्या किया है तेरे भाई का लोहू १०  
 भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है ।  
 सो अब भूमि जिस ने तेरे भाई का लोहू तेरे हाथ से पीने ११  
 के लिये अपना मुंह पसारा है उस की ओर से तू स्थापित  
 है । चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उस की पूरी उपज १२  
 फिर तुझे न मिलेगी<sup>२</sup> और तू पृथिवी पर बहेतू और भगोड़ा  
 होगा । तब कैन ने यहोवा से कहा मेरा दर्द सहने से<sup>३</sup> १३  
 बाहर है । देख तू ने आज के दिन मुझे भूमि पर से १४  
 बरबस निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की ओट रहूंगा और

(१) मूल में. लिया । (२) मूल में. वह तुझे फिर अपना बल न देगी । (३) वा. मेरा अशर्म क्षमा होने से ।



पृथिवी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे १५  
प्राणश मेा मुझे घात करेगा । यहोवा ने उस से कहा इस  
कारण जो कोई कैन को घात करे उस से सात गुणा  
पलटा लिया जायगा । और यहोवा ने कैन के लिये एक  
चिह्न ठहराया न हो कि कोई उसे पाकर मारे ॥

१६ तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद  
१७ नाम देश में जो एदेन की पूरब ओग है रहने लगा । जब  
कैन ने अपनी स्त्री से प्रसंग किया तब वह गर्भवती होकर  
हनोक को जनी, फिर कैन एक नगर बसाने लगा और  
उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रक्खा ।

१८ और हनोक से ईराद् जन्मा और ईराद् ने महूयाएल को  
जन्माया और महूयाएल ने मत्शाएल को और मत्शा-

२९ एल ने लेमेक को जन्माया । और लेमेक ने दो स्त्रियां  
ब्याह लिई जिन में से एक का नाम आदा और दूसरी का

२० सिल्ला है । और आदा याबाल को जनी वह तम्बुओं में  
रहना और ढोरो का पालना इन दोनों रीतियों का चलाने-

२१ हारा हुआ । और उस के भाई का नाम यूबाल है वह  
वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति

२२ का चलानेहारा हुआ । और सिल्ला भी तूबलकैन नाम  
एक पुत्र जनी वह पीतल और लोहे के सब धारवाले  
हथियारों का गढ़नेहारा हुआ और तूबलकैन की बहिन

२३ नामा थी । और लेमेक ने अपनी स्त्रियों से कहा  
हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो

हे लेमेक की स्त्रियों मेरी बात पर कान लगाओ  
मैं ने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था  
अर्थात् एक जवान को जो मुझे घायल करता था घात  
किया है ।

२४ जब कैन का पलटा सातगुणा लिया जाएगा  
तो लेमेक का सतहस्तरगुणा लिया जाएगा

२५ और आदम ने अपनी स्त्री से फिर प्रसंग किया और  
वह पुत्र जनी और उस का नाम यह कह के शेत रक्खा  
कि परमेश्वर ने मेरे लिये हाबिल की सन्ती जिस को कैन

२६ ने घात किया एक और बंश ठहरा दिया है । और शेत के  
भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस ने उसका नाम एनोश  
रक्खा उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे ॥  
(आदम की वंशावली)

**५. आदम की वंशावली यह है ।** जब परमेश्वर ने

मनुष्य को सिरजा तब अपनी समानता  
१ ही में बनाया । नर और नारी करके उस ने मनुष्यों को  
सिरजा और उन्हें आशिष दी और उन की सृष्टि के दिन

(१) मूल में तब में रहनेहारों और ढोरों का पिता हुआ । (२) मूल  
में बाया और बांसुरी के सब पकड़नेहारों का पिता हुआ ।

उन का नाम आदम रक्खा । जब आदम एक सौ ३  
तीस बरस का हुआ तब उस ने अपनी समानता में अपने  
स्वरूप के अनुसार एक पुत्र जन्माकर उस का नाम शेत  
रक्खा । और शेत को जन्माने के पीछे आदम आठ ४  
सौ बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे बेटियां  
उत्पन्न हुईं । और आदम की सारी अवस्था नौ सौ तीस ५  
बरस की हुई तब वह मर गया ॥

जब शेत एक सौ पांच बरस का हुआ तब उस ने ६  
एनोश को जन्माया । और एनोश को जन्माने के पीछे ७  
शेत आठ सौ सात बरस जीता रहा और उस के और भी  
बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं । और शेत की सारी अवस्था नौ ८  
सौ बारह बरस की हुईं तब वह मर गया ॥

जब एनोश नब्बे बरस का हुआ तब उस ने केनान ९  
को जन्माया । और केनान को जन्माने के पीछे एनोश १०  
आठ सौ पन्द्रह बरस जीता रहा और उस के और भी  
बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं । और एनोश की सारी अवस्था ११  
नौ सौ पांच बरस की हुईं तब वह मर गया ॥

जब केनान सत्तर बरस का हुआ तब उस ने १२  
महललेल को जन्माया । और महललेल को जन्माने के १३  
पीछे केनान आठ सौ चालीस बरस जीता रहा और उस  
के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं । और केनान की सारी १४  
अवस्था नौ सौ दस बरस की हुईं तब वह मर गया ॥

जब महललेल पैसठ बरस का हुआ तब उस ने येरेद १५  
को जन्माया । और येरेद को जन्माने के पीछे महललेल १६  
आठ सौ तीस बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे  
बेटियां उत्पन्न हुईं । और महललेल की सारी अवस्था १७  
आठ सौ पंचानवे बरस की हुईं तब वह मर गया ॥

जब येरेद एक सौ बासठ बरस का हुआ तब उस ने १८  
हनोक को जन्माया । और हनोक को जन्माने के पीछे १९  
येरेद आठ सौ बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे  
बेटियां उत्पन्न हुईं । और येरेद की सारी अवस्था नौ सौ २०  
बासठ बरस की हुईं तब वह मर गया ॥

जब हनोक पैसठ बरस का हुआ तब उस ने मत्शे- २१  
लह को जन्माया । और मत्शे-लह को जन्माने के पीछे २२  
हनोक तीन सौ बरस लों परमेश्वर के साथ साथ चलता  
रहा और उस के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं । और २३  
हनोक की सारी अवस्था तीन सौ पैसठ बरस की हुईं । और २४  
हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था फिर वह न

रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे रत्न लिया था । जब मत्शे- २५  
लह एक सौ सत्तासी बरस का हुआ तब उस ने लेमेक को  
जन्माया । और लेमेक को जन्माने के पीछे मत्शे-लह २६

(१) वा. मनुष्य ।

सात सौ बयासी बरस जीता रहा और उस के और भी  
२७ बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुईं । और मत्शेलेह की सारी अवस्था  
नौ सौ उनहत्तर बरस की हुई तब वह मर गया ॥

२८ जब लेमेक एक सौ बयासी बरस का हुआ तब उस

२९ ने एक पुत्र जन्माया । और यह कह कर उस का नाम

नूह रखवा कि यहोवा ने जो पृथिवी को साप दिया है

उस के विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन

३० परिश्रम में जो हम करते हैं' हम को शांति देगा । और

नूह को जन्माने के पीछे लेमेक पांच सौ पंचानवे बरस

जीता रहा और उस के और भी बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुईं ।

३१ और लेमेक की सारी अवस्था सात सौ सतहत्तर बरस

की हुई तब वह मर गया ॥

३२ और नूह पांच सौ बरस का हुआ और उस ने शेम

और हाम और येपेत को जन्माया था ॥

(जलप्रलय का वर्णन)

**६. फिर** जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत होने  
लगे और उन के बेटियाँ उत्पन्न हुईं,

२ तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा

कि वे सुन्दर हैं सो उन्होंने ने जिस जिस को चाहा

३ उन को अपनी स्त्रियाँ बना लिया । और यहाँवा ने कहा

मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लों विवाद करता न रहेगा

क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है<sup>२</sup> उस का समय एक सौ

४ बीस बरस होगा । उन दिनों में पृथिवी पर नपील लोग

रहते थे और पीछे जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों

के पास जात और वे उन के जन्माये पुत्र जनती थीं तब

वे पुत्र भी शूबोर होते थे जिन की कीर्ति प्राचीनकाल

५ मे बनी है । और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई

पृथिवी पर बढ़ गई है और उन के मन के विचार में

६ जो कुछ उत्पन्न होता सो निरन्तर बुरा ही होता है । और

यहाँवा पृथिवी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह

७ मन में अति खेदित हुआ । सो यहोवा ने सोचा कि मैं

मनुष्य को जिसे मैं ने सिरजा है पृथिवी के ऊपर से मिटा

वूंगा क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगनेहारे जन्तु क्या

आकाश के पक्षी सब को मिटा वूंगा क्योंकि मैं उन के

८ बनाने से पछताता हूँ । परन्तु यहोवा की अनुग्रह की

दृष्टि नूह पर बनी रही ॥

९ नूह का वृचान्त<sup>२</sup> यह है । नूह धर्मी पुरुष और

अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही

१० के साथ साथ चलता रहा । और नूह ने शेम और हाम

११ और येपेत नाम तीन पुत्रों को जन्माया । उस समय

(१) मूल में. हमारे हाथ के कठिन परिश्रम में । (२) या. वह मटक

नाम से शरीर ही ठहरा । (३) मूल में. बराबली ।

पृथिवी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव  
से भर गई थी । और परमेश्वर ने जो पृथिवी पर दृष्टि १२

की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है क्योंकि सब

प्राणियों ने पृथिवी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़

दी थी ॥

सो परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों का अन्त १३

करना मेरे मन में आ गया है' क्योंकि उन के कारण

पृथिवी उपद्रव से भर गई है सो मैं उन को पृथिवी समेत १४

नाश कर डालूंगा । सो तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक

जहाज बना ले उस में काठरियाँ बनाना और भीतर बाहर १५

उस पर राल लगाना । और इस दृश्य से उस को बनाना, १५

जहाज की लम्बाई तीन सौ हाथ चौड़ाई पचास हाथ और

ऊँचाई तीस हाथ की हो । जहाज में एक खिड़की<sup>२</sup> बनाना १६

और इस के एक हाथ ऊपर उस की छत पाटना और

जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना और जहाज में

पहिला दूसरा तीसरा खंड बनाना । और सुन मैं आप १७

पृथिवी पर जल लाय करके सब प्राणियों को जिन में

जीवन का आत्मा है आकाश के तले से नाश करने पर

हूँ पृथिवी पर जो जो हैं उन का तो प्राण छूटगा । पर १८

तेरे संग मैं बाचा बांधता हूँ सो तू अपने पुत्रों स्त्री और

बहुओं समेत जहाज में जाना । और सब जीते प्राणियों में १९

से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात् एक नर और एक

मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जिलाय रखना ।

एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और २०

एक एक जाति के भूमि पर रेंगनेहारे सब में से दो दो तेरे

पास आएंगे कि तू उन को जिलाय रखे । और भाँति २१

भाँति का आहार जो कुछ खाया जाता है उस को तू लेके

अपने पास बठोर रखना सो तेरे और उन के भोजन के

लिये होगा । परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार ही २२

नूह ने किया ॥

**७. और** यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे  
घराने समेत जहाज में जा क्योंकि मैं

ने इस समय के लोगों में से केवल तुम्हीं को अपने लेखे

धर्मी देखा है । सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू २

सात सात अर्थात् नर और मादा लेना पर जो पशु शुद्ध

नहीं उन में से दो दो लेना अर्थात् नर और मादा और

आकाश के पक्षियों में से भी सात सात अर्थात् नर और

मादा लेना कि उन का वंश बचकर सारी पृथिवी के ऊपर

बना रहे । क्योंकि अब सात दिन और बीतने पर मैं पृथिवी ४

पर जल बरसाने लगूंगा और चालीस दिन और चालीस

रात लों उसे बरसाना हूँगा और जितनी वस्तुएँ मैं ने बनाईं

(१) मूल में. अन्त मेरे सम्बन्धने आ गया है । (२) मूल में. उजियाला ।

- ५ सब को भूमि के ऊपर से मिटाऊंगा । यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया ॥
- ६ नूह की अवस्था के छः सौवें बरस में जलप्रलय
- ७ पृथिवी पर हुआ । नूह अपने पुत्रों स्त्री और बहुओं समेत
- ८ प्रलय के जल से बचने के लिये जहाज में गया । और
- ९ शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से और पक्षियों
- १० और भूमि पर रेंगनेहारों में से भी, दो दो अर्थात् नर
- और मादा जहाज में नूह के पास गये जैसा कि परमे-
- ११ श्वर ने नूह को आज्ञा दी थी । सात दिन पीछे प्रलय
- का जल पृथिवी पर आने लगा । जब नूह की अवस्था
- के छः सौवें बरस के दूसरे महीने का सत्तरहवां दिन
- आया उसी दिन बड़े गहिरें समुद्र के सब सोते फूट
- १२ निकले और आकाश के भरौखे खुल गये । और वर्षा
- चालीस दिन और चालीस रात लों पृथिवी पर होती रही ।
- १३ ठीक उसी दिन नूह अपने शेम हाम येपेत नाम पुत्रों
- १४ और अपनी स्त्री और तीनों बहुओं समेत, और उन के
- संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक
- जाति के सब घरेले पशु और एक एक जाति के सब
- पृथिवी पर रेंगनेहारें और एक एक जाति के सब उड़ने-
- १५ हारे पक्षी जहाज में गये । जितने प्राणियों में जीवन का
- आत्मा था उन की सब जातियों में से दो दो नूह के पास
- १६ जहाज में गये । और जो गये सो परमेश्वर की आज्ञा के
- अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गये ।
- १७ तब यहोवा ने उस के पीछे द्वार मूद दिया । और प्रलय
- पृथिवी पर चालीस दिन लों रहा और जब जल बढ़ने लगा
- तब उस से जहाज उभरने लगा यहां लों कि वह पृथिवी
- १८ पर से ऊंचा हो गया । और जल बढ़ते बढ़ते पृथिवी पर
- बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता
- १९ रहा । बरन जल पृथिवी पर अत्यन्त बढ़ गया यहां लों
- कि सारी धरती पर? जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब
- २० गये । जल तो पन्द्रह हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़
- २१ डूब गये । और क्या पक्षी क्या घरेले पशु क्या बनेले
- पशु पृथिवी पर सब चलनेहारें प्राणी बरन जितने जन्तु
- पृथिवी में बहुतायत से भर गये थे उन सभी का और
- २२ सब मनुष्यों का प्राण भी छूट गया । जो जंगल पर थे
- उन में से जितनों के नथनों में जीवन के आत्मा का
- २३ श्वास था सब मर मिटे । और क्या मनुष्य क्या पशु क्या
- रेंगनेहारें जन्तु क्या आकाश के पक्षी जो जंगल भूमि पर
- थे सो सब पृथिवी पर से मिट गये केवल नूह और जितने
- २४ उस के संग जहाज में थे वे ही बच गये । और जल
- पृथिवी पर एक सौ पचास दिन लों बढ़ा रहा ॥

(१) मूल में. सारे आकाश के तले ।

८. और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले
- पशु और घरेले पशु उस के संग जहाज
- में थे उन सभी की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथिवी पर
- पवन बहाई तब जल घटने लगा । और गहिरें समुद्र के २
- सोते और आकाश के भरौखे मूद गये और उस से जो
- वर्षा होती थी सो थम गई । और एक सौ पचास दिन के ३
- बीते पर जल पृथिवी पर से लगातार घटने लगा । सातवें ४
- महीने के सत्तरहवें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़
- पर टिक गया । और जल दसवें महीने लों घटता चला ५
- गया सो दसवें महीने के पहिले दिन को पहाड़ों क
- चोटियां दिखाई दीं । फिर चालीस दिन के पीछे नूह ने ६
- अपने बनाये हुए जहाज की खिड़की को खोलकर,
- एक कौवा उड़ा दिया वह जब लों जल पृथिवी पर से ७
- सूख न गया तब लों इधर उधर फिरता रहा । फिर उस
- ने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें ८
- कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं । उस कबूतरी को
- जो अपने चंगुल के टेकने के लिये कोई स्थान न मिला सो ९
- वह उस के पास जहाज में लौट आई क्योंकि सारी पृथिवी
- के ऊपर जल ही जल रहा तब उस ने हाथ बढ़ाकर उसे
- अपने पास जहाज में रख लिया । तब और सात दिन लों १०
- ठहर कर उस ने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा
- दिया । और कबूतरी सांभ के समय उस के पास आ गई ११
- और क्या देख पड़ा कि उस की छांच में जलपाई का
- एक नया पत्ता है इस से नूह ने जान लिया कि जल
- पृथिवी पर घट गया है । फिर उस ने और सात दिन १२
- ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उस के
- पास फिर कभी लौटकर न आई । जब छः सौ बरस पूरे १३
- हुए तब दूसरे दिन? जल पृथिवी पर से सूख गया था
- तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती १४
- सूख गई है । और दूसरे महीने के सत्ताईसवें दिन को
- पृथिवी पूरी रीति से सूख गई ॥

तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों १५, १६

स्त्री और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ । क्या १७

पक्षी क्या पशु क्या सब भांति के रेंगनेहारें जन्तु जो

पृथिवी पर रेंगते हैं जितने शरीरधारी जीवजन्तु तरे संग

हैं उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथिवी

पर उन से बहुत बच्चे उत्पन्न हों और वे फूलें फलें और

पृथिवी पर फैल जाएं । तब नूह और उस के पुत्र और स्त्री १८

बहुएं निकल आईं । और सब चीपाये रेंगनेहारें जन्तु और १९

पक्षी और जितने जीवजन्तु पृथिवी पर चलते फिरते हैं सो

सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आये । तब २०

(१) मूल में. छः सौ एक बरस के पहिले महीने के पहिले दिन ।

नूह ने यहोवा की एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम-  
 २१ बलि करके चढ़ाये । इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगन्ध पाकर सोचा कि मैं मनुष्य के कारण फिर भूमि को कभी आप न दूंगा यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता सो बुरा ही होता है तौ भी जैसा मैं ने सब जीवों को अब मारा है वैसा उन को फिर कभी न मारूंगा ।  
 २२ अब से जब लों पृथिवी बनी रहेगी तब लों बोलने और लवने के समय ठण्ड और तपन धूपकाल और शीतकाल दिन और रात निरन्तर होती चली जाएंगी ॥

९. फिर परमेश्वर ने नूह और उस के पुत्रों को यह आशिष दी कि फूलो फलों और बड़ों और

१ पृथिवी में भर जाओ । और तुम्हारा डर और भय पृथिवी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रंगेनेहारे जन्तुओं और समुद्र की सब मल्लियों पर बना रहेगा वे सब तुम्हारे वश में कर दिये जाते हैं । सब चलने-हारे जन्तु तुम्हारा आहार होंगे जैसा तुम को हरे हरे छोटे  
 ४ पेड़ दिये थे तैसा ही अब सब कुछ देता हूँ । पर मांस का प्राण समेत अर्थात् लांह समेत तुम न खाना । और निश्चय मैं तुम्हारे लांह अर्थात् प्राण का पलटा लूंगा सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा मनुष्य के  
 ६ प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बन्धु से लूंगा । जो कोई मनुष्य का लांह बहाये उस का लोह मनुष्य ही से बहाया जाए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही  
 ७ स्वरूप के अनुसार बनाया है । और तुम तो फूलो फलो और बड़ो और पृथिवी में बहुत बन्धे जन्मा के उस में भर जाओ ॥

८ फिर परमेश्वर ने नूह और उस के पुत्रों से कहा,  
 ९ सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा वंश होगा उस के साथ भी वाचा बांधता हूँ । और सब जीते प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं क्या पक्षी क्या घरेले पशु क्या पृथिवी के सब बनेले पशु पृथिवी के जितने जीव-जन्तु जहाज से निकले हैं सब के साथ भी मेरी यह वाचा  
 ११ बंधनी है । और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर प्रलय के जल से नाश न होंगे और पृथिवी के नाश करने के लिये फिर जलप्रलय  
 १२ न होगा । फिर परमेश्वर ने कहा जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीते प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिये बांधता हूँ उस का  
 १३ यह चिन्ह है कि मैं ने बादल में अपना धनुष रक्खा है वह मेरे और पृथिवी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा ।  
 १४ और जब मैं पृथिवी पर बादल फैलाऊँ तब बादल में धनुष

देख पड़ेगा । तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीते १५ शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उस को मैं स्मरण करूंगा सो फिर ऐसा जलप्रलय न होगा । जिस से सब प्राणियों का विनाश हो । बादल में जो धनुष होगा सो मैं १६ उसे देखके यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथिवी पर के सब जीते शरीरधारी प्राणियों के बीच बन्धी है । फिर परमेश्वर ने नूह से कहा जो १७ वाचा मैं ने पृथिवी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उस का चिन्ह यही है ॥

नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले सो शेम हाम और १८ येपेत थे और हम तो कनान का पिता हुआ । नूह के तीन १९ पुत्र थे ही हैं और इन का वंश सारी पृथिवी पर फैल गया ।

पीछे नूह किसनई करने लगा और उस ने दाख की २० वारी लगाई । और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ २१ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया । तब कनान के २२ पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया । तब शेम और २३ येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कन्धों पर रक्खा और पीछे की ओर उलटा चलकर अपने पिता के नंगे तन का ढांप दिया और वे जो अपने मुख पीछे किये थे सो २४ उन्होंने ने अपने पिता को नंगा न देखा । जब नूह का नशा उतर गया तब उम ने जान लिया कि मेरे छोटे पुत्र ने मुझ से क्या किया है ॥

सो उस ने कहा २५ कनान श्रापित हो वह अपने भाईबन्धुओं के दासों का दास हो । फिर उस ने कहा २६

शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास होवे । परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए २७ और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उस का दास होवे ।

जलप्रलय के पीछे नूह साढ़े तीन सौ बरस जीता २८ रहा । और नूह की सारी अवस्था साढ़े नौ सौ बरस की २९ हुई तब वह मर गया ॥

(नूह की वंशावली)

१०. नूह के पुत्र जो शेम हाम और येपेत थे जलप्रलय के पीछे उनके पुत्र उत्पन्न हुए सो उन की वंशावली यह है ॥

येपेत के पुत्र गोमेर मारोग मादै यावान तुबल २  
 मेशेक और तीरास हुए । और गोमेर के पुत्र अशकनज ३

(१) मूल में उस ।

- ४ रीपत और तोगर्मा हुए । और यावान के वंश में एलीशा तर्शाश और किर्ती और दोदानी लोग हुए ।
- ५ इन के वंश अन्यजातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बंट गये कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गये ॥
- ६ फिर हाम के पुत्र कूश मिस्र पूत और कनान हुए । और कूश के पुत्र सबा हवीला सबता रामा और सबूतका हुए और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए ।
- ७ और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ पृथिवी पर
- ९ पहिला वीर वही हुआ । वह यहाँवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलनेहारा ठहरा इस से यह कहावत चली है, कि निम्रोद के समान यहाँवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलनेहारा । और उस के राज्य का आरम्भ शिनार देश में बाबेल और अर्रद और कलने हुआ ।
- ११ उम देश से वह निकलकर अर्रद को गया और नीनवे
- १२ रहोगेतीर और कालह को, और नीनवे और कालह के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया बड़ा नगर यही
- १३ है । और मिस्र के वंश में लूदी अनामी लहाबी
- १४ गन्तूही । पत्रूसी कसलूही और कप्तोरी लोग हुए कसलूदियों में से तो पलिशती लोग निकले ॥
- १५ फिर कनान के वंश में उस का जेठा सीदोन तब
- १६, १७ हित्त, और मसूसी एमोरी गिर्गाशी, हिन्वी अर्की
- १८ सीनी, अर्बदी समारी और हमाती लोग भी हुए और
- १९ कनानियों के कुल पीछे ही फैल गये । और कनानियों का सिवाना सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अजा लों और फिर सदोम अमोरा अदमा और सबा-
- २० यीम के मार्ग से होकर लाशा लों हुआ । हाम के वंश में ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों भाषाओं देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गये ॥
- २१ फिर शेम जो सब एवेरवंशियों का मूलपुरुष हुआ और येपेत का जेठा भाई था उस के भी पुत्र उत्पन्न
- २२ हुए । शेम के पुत्र एलाम अर्रद लूद और
- २३ अराम हुए । और अराम के पुत्र ऊस हल गैतेर और
- २४ मश हुए । और अर्रद ने शेलह को और शेलह ने
- २५ एवेर को जन्माया । और एवेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए एक का नाम पेलैग इस कारण रक्खा गया कि उस के दिनों में पृथिवी बंट गई और उस के भाई का नाम
- २६ योक्तान है । और योक्तान ने अल्मोदाद शैलेप हसर्मावेत
- २७, २८ येरह । यदोराम ऊजाल दिन्नान, आंबाल अर्बीमाएल
- २९ शबा, ओपीर हवीला और योबाब को जन्माया ये ही
- ३० सब योक्तान के पुत्र हुये । इनके रहने का स्थान मेशा

(१) बा. जिसका बड़ा भाई येपेत था ।

से लेकर सपारा जो पूरब में एक पहाड़ है उस के मार्ग लों हुआ । शेम के पुत्र ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों भाषाओं देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गये ॥

नूह के पुत्रों के कुल ये ही हैं और उन की जातियों के अनुसार उन की वंशावलियां ये ही हैं और जलप्रलय के पीछे पृथिवी भर की जातियां इन्हीं से होकर बंट गई ॥

(मनुष्य की भाषाओं में गड़बड़ पढ़ने का वर्णन)

## ११. सारी पृथिवी पर एक ही भाषा और

एक ही बोली थी । उस समय

लोग पूरब ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उस में बस गये । तब वे आपस में कहने लगे आओ हम इँटें बना बनाके भली भाँति पकाएँ सो उन के लिये इँटें पत्थरों का और मिट्टी का राल गारे का काम देती थीं । फिर उन्होंने ने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मत बना लें जिस की चोटी आकाश से बातें करे इस प्रकार से हम अपना नाम करें न हो कि हम को सारी पृथिवी पर फैलना पड़े । जब आदमी नगर और गुम्मत बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिये यहोवा उतर आया । और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ने ऐसा ही काम भी आरम्भ किया सो अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उस में से कुछ उन के लिये अनहोना न होगा । सो आओ हम उतरके उन की भाषा में वहाँ गड़बड़ डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें । सो यहोवा ने उन को वहाँ से सारी पृथिवी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने ने उस नगर का बनाना छोड़ दिया । इस कारण उस नगर का नाम बाबेल<sup>१</sup> पड़ा क्योंकि सारी पृथिवी की भाषा में जो गड़बड़ है सो यहोवा ने वहाँ डाली और वहाँ से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथिवी के ऊपर फैला दिया ॥

(शेम की वंशावली)

शेम की वंशावली यह है । जलप्रलय के दो बरस पीछे जब शेम एक सौ बरस का हुआ तब उस ने अर्रद को जन्माया । और अर्रद को जन्माने के पीछे शेम पाँच सौ बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुई ॥

जब अर्रद पैंतीस बरस का हुआ तब उस ने शेलह को जन्माया । और शेलह को जन्माने के पीछे अर्रद चार सौ तीन बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुई ॥

(२) अर्थात् गड़बड़ ।

१४ जब शैलह तीस बरस का हुआ तब उस ने एबेर  
१५ को जन्माया । और एबेर को जन्माने के पीछे शैलह  
चार सौ तीस बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे  
बेटियां उत्पन्न हुईं ॥

१६ जब एबेर चौतीस बरस का हुआ तब उस ने  
१७ पेलोग को जन्माया । और पेलोग को जन्माने के पीछे  
एबेर चार सौ तीस बरस जीता रहा और उस के और  
भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं ।

१८ जब पेलोग तीस बरस का हुआ तब उस ने रू को  
१९ जन्माया । और रू को जन्माने के पीछे पेलोग दो सौ  
नौ बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे बेटियां  
उत्पन्न हुईं ॥

२० जब रू बत्तीस बरस का हुआ तब उस ने सरूग  
२१ को जन्माया । और सरूग को जन्माने के पीछे रू दो  
सौ सात बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे  
बेटियां उत्पन्न हुईं ॥

२२ जब सरूग तीस बरस का हुआ तब उस ने नाहोर  
२३ को जन्माया । और नाहोर के जन्माने के पीछे सरूग  
सौ बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे बेटियां  
उत्पन्न हुईं ॥

२४ जब नाहोर उनतीस बरस का हुआ तब उस ने  
२५ तेरह को जन्माया । और तेरह को जन्माने के पीछे  
नाहोर एक सौ उन्तीस बरस जीता रहा और उस के और  
भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं ॥

२६ जब तक तेरह सत्तर बरस का हुआ तब तक उस  
ने अब्राम नाहोर और हारान को जन्माया था ॥

२७ तेरह की यह वंशावली है कि तेरह ने अब्राम  
नाहोर और हारान को जन्माया और हारान ने लूत  
२८ को जन्माया । और हारान अपने पिता के सांभने ही

कसूदियों के ऊर नाम नगर में जो उस की जन्मभूमि  
२९ थी मर गया । अब्राम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह लीं  
अब्राम की स्त्री का नाम तो सारै और नाहोर की स्त्री  
का नाम मिल्का है यह उस हारान की बेटि थी जो

३० मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था । सारै तो बांभ  
३१ थी उस के सन्तान न हुआ । और तेरह अपना पुत्र

अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और  
अपनी बहु सारै जो उस के पुत्र अब्राम की स्त्री थी इन  
सभों को लेकर कसूदियों के ऊर नगर से निकल कनान  
देश जाने को चला पर हारान नाम देश में पहुँचकर

३२ वहीं रहने लगा । जब तेरह दो सौ पाँच बरस का हुआ  
तब वह हारान देश में मर गया ॥

(परमेश्वर को और से इब्राहीम के बुलाये जाने का वर्णन)

१२. यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश

और अपनी जन्मभूमि और अपने  
पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें  
दिखाऊंगा । और मैं तुम्हें से एक बड़ी जाति उपजाऊंगा २  
और तुम्हें आशिष दूंगा और तेरा नाम बढ़ा करूँगा और  
तू आशिष का मूल हो । और जो तुम्हें आशीर्वाद दें उन्हें ३  
मैं आशिष दूँगा और जो तुम्हें कैसे उसे मैं साप दूँगा  
और भूमण्डल के सारे कुल तेरे द्वारा आशिष पाएँगे । ४  
यहोवा के इस कहे के अनुसार अब्राम चला और लूत  
भी उस के संग चला और जब अब्राम हारान देश से निकला  
तब वह पचहत्तर बरस का था । सो अब्राम अपनी स्त्री सारै ५  
और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने ने इकट्ठा  
किया था और जो प्राणी उन्होंने ने हारान में प्राप्त किये थे  
सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और  
वे कनान देश में आ भी गये । उस देश के बीच से ६  
जाते जाते अब्राम शकेम का स्थान जहाँ मोरे का बाँज  
वृक्ष है वहाँ लौ पहुँच गया उस समय उस देश में कनानी  
लांग रहते थे । तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर ७  
कहा यह देश मैं तेरे वंश को दूँगा और उस ने वहाँ यहोवा  
की जिस ने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई । फिर ८  
वहाँ से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेटेल  
की पूरब ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा  
किया जिस की पच्छिम ओर तो बेटेल और पूरब ओर  
ऐ है और वहाँ भी उस ने यहोवा की एक वेदी बनाई  
और यहोवा से प्रार्थना की । और अब्राम दक्षिण देश ९  
की ओर कूच करके चलता गया ॥

और उस देश में अकाल पड़ा सो वहाँ जो भारी १०  
अकाल पड़ा इस लिये अब्राम मिस्र को चला कि वहाँ  
परदेशी होके रहे । मिस्र के निकट पहुँचकर उस ने ११  
अपनी स्त्री सारै से कहा सुन मुझे मालूम है कि तू सुन्दरी  
स्त्री है । इस कारण जब मिस्री तुम्हें देखेंगे तब कहेंगे यह १२  
उस की स्त्री है सो वे मुझे को तो मार डालेंगे पर तुम्हें को  
जीती रख लेंगे । सो यह कहना कि मैं उस की बहिन हूँ १३  
जिस से तेरे कारण मेरा भला होए और मेरा प्राण तेरे  
कारण बचे । जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने १४  
उस की स्त्री को देखा कि यह बहुत सुन्दरी है । और १५  
फिरौन के हाकिमों ने उस को देखकर फिरौन के सांभने  
उस की प्रशंसा की सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी  
गई । और उस ने उस के कारण अब्राम की भलाई की १६  
सो उस को भेड़ बकरी गाय बैल गदहे दास दासियां गद-  
हियां और ऊँट मिले । तब यहोवा ने फिरौन और उस १७

के बराने पर अब्राम की स्त्री सारे के कारण बड़ी बड़ी  
१८ विपत्तियां आलीं। तो फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर  
कहा तू ने मुझ से क्या किया है तू ने मुझे क्यों नहीं  
१९ बताया कि यह मेरी स्त्री है। तू ने क्यों कहा कि यह  
मेरी बहिन है मैं ने उसे अपनी स्त्री कर लिया तो है पर  
२० अब्र अपनी स्त्री को लेकर चला जा। और फिरौन ने  
अपने जनों को उस के विषय में आज्ञा दी और उन्होंने  
उस को और उस की स्त्री को उस सब समेत जो उस का  
था बिदा कर दिया ॥

(इब्राहीम और लूत के अलग अलग होने का वर्णन)

**१३. तब अब्राम अपनी स्त्री और अपनी सारी**

सम्पत्ति समेत लूत को भी संग लिये हुए  
मिस्र को छोड़ कर कनान के दक्खिन देश में आया।  
२ अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी  
३ था। फिर वह दक्खिन देश से चल कर बेतल के पास  
उसी स्थान को पहुँचा जहाँ उस का तंबू पहले पड़ा था  
४ जो बेतल और ऐ के बीच में है। वह उसी वेदी का स्थान  
है जो उस ने वहाँ पहले बनाई थी और वहाँ अब्राम ने  
५ फिर यहोवा से प्रार्थना की। और लूत जो अब्राम के  
साथ चलता था उस के भी भेड़ बकरी गाय बैल और  
६ तंबू थे। तो उस देश में उन दोनों की समाई न हो  
सकी कि वे इकट्ठे रहें क्योंकि उन के बहुत धन था यहाँ  
७ तक कि वे इकट्ठे न रह सके। तो अब्राम और लूत की  
भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में भगड़ा हुआ  
और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में  
८ रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा मेरे और तेरे  
बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में भगड़ा न  
९ होने पाए क्योंकि हम लोग भाई-बंधु हैं। क्या सारा देश  
तेरे साम्हने नहीं तो मुझ से अलग हो। यदि तू बाईं ओर  
जाए तो मैं दहिनी ओर जाऊँगा और यदि तू दहिनी  
१० ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊँगा। तब लूत ने आँख  
उठाकर यर्दन नदी के पासवाली सारी तराई का देखा  
कि वह सब मिची हुई है। जब लो यहोवा ने सदाम  
और अमोरा को नाश न किया था तब लो सोअर के  
मार्ग तक वह तराई यहोवा की वारी और मिस्र देश के  
११ समान उपजाऊ थी। तो लूत अपने लिये यर्दन की सारी  
तराई को चुनके पूरब ओर चला और वे एक दूसरे से  
१२ अलग हो गये। अब्राम तो कनान देश में रहा पर लूत  
उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू  
१३ सदाम के निकट खड़ा किया। सदाम के लोग यहोवा  
के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से  
१४ अलग हो गया उस के पीछे यहोवा ने अब्राम से कहा

आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्खिन  
पूरब पच्छिम चारों ओर दृष्टि कर। क्योंकि जितनी भूमि  
तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश  
को युग युग के लिये दूँगा। और मैं तेरे वंश को पृथिवी  
की धूल के किनकों की नाईं बहुत करूँगा, यहाँ लो कि जो  
कोई पृथिवी की धूल के किनकों को गिन सके वही तेरा  
वंश भी गिन सकेगा। उठ इस देश की लम्बाई और  
चौड़ाई में चल फिर क्योंकि मैं उसे तुम्हीं को दूँगा। इस  
के पीछे अब्राम अपना तंबू उखाड़ के मझे के बाजों के  
बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहाँ भी  
यहोवा की एक वेदी बनाई ॥

(इब्राहीम के विजय और मेलकीसेदेक के दर्शन देने का वर्णन)

**१४. शिनार के राजा अम्रापेल और**

एल्लासार के राजा अर्योक  
और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोथीम के राजा  
तिदाल के दिनों में क्या हुआ कि, वे सदाम के राजा बेरा  
और अमोरा के राजा विशा और अदमा के राजा शिनाब  
और सबोयीम के राजा शेमेबर और बेला जो सोअर भी  
कहावता है उस के राजा के साथ लड़े। इन पाँचों ने  
मिहीम नाम तराई में जो खारे ताल के पास है एका  
किया। बारह बरस लो तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे  
पर तेरहवें बरस में उस के विरुद्ध उठे। तो चौदहवें बरस  
में कदोर्लाओमेर और उस के संगी राजा आये और  
अशतरोत्कनेम में रपाहियों को और हाम में जूजियों को  
और शावेकियाँतैम में एमियाँ को, और सेईर नाम  
पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्लपारान लो जो  
जंगल के पास है पहुँच गये। वहाँ से वे घूमकर एन्मि-  
शपात को आये जो कादेश भी कहावता है और अमा-  
लेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत  
लिया जो हससोन्तामार में रहते थे। तब सदीम अमोरा  
अदमा सबोयीम और बेला जो सोअर भी कहावता है  
इन के राजा निकले और सिहीम नाम तराई में उन के  
साथ युद्ध के लिये पाँति बन्धाई। अर्थात् एलाम के राजा  
कदोर्लाओमेर गोथीम के राजा तिदाल शिनार के राजा  
अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योक इन चारों के  
विरुद्ध उन पाँचों ने पाँति बन्धाई। सिहीम नाम  
तराई में जो लसार मिट्टी के गड़हे ही गड़हे थे तो सदाम  
और अमोरा के राजा भागते भागते उन में गिर पड़े  
और बाकी लोग पहाड़ पर भाग गये। तब वे सदाम  
और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूटके  
चले गये। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदाम  
में रहता था उस को भी धन समेत वे लेकर चले गये।

१३ तब एक जन जो भागकर बच गया उस ने जाकर इब्री  
अब्राम को समाचार दिया अब्राम तो एमोरी मन्त्रे जो  
एश्कोल और आने का भाई था उस के बांज वृद्धों के  
१४ बांधे हुए थे । यह सुनके कि मेरा भतीजा बंधुआई में  
गया अब्राम ने अपने तीन सौ अठारह सीखे हुए दासों  
को जो उस के घर में उत्पन्न हुए थे हथियार बन्धा के  
१५ दान लों उन का पीछा किया, और अपने दासों के अलग  
अलग दल बान्धकर रात को उन पर लपककर उन को  
मार लिया और होवा लों जो दमिश्क की उत्तर ओर है  
१६ उन का पीछा किया । और वह सारे धन को और अपने  
भतीजे लूत और उस के धन को और स्त्रियों को और  
१७ सब बंधुओं को फेर ले आया । वह कदोर्लाओमेर  
और उस के संगी राजाओं को जीतकर लौटा आता था  
कि सदोम का राजा शावे नाम तराई में जा राजा की  
१८ भी कहावती है उस के भेंट करने को आया । तब  
शालेम का राजा मेलुकीसेदेक जो परमप्रधान ईश्वर का  
१९ याजक था सो रोट्टी और दाखमधु ले आया । और  
उस ने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, कि परमप्रधान  
ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथिवी का अधि-  
२० कारी है, तू धन्य हो । और धन्य है परमप्रधान ईश्वर  
जिस ने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है । तब  
२१ अब्राम ने उस को सब का दशमांश दिया । तब सदोम  
के राजा ने अब्राम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे और  
२२ धन को अपने पास रख । अब्राम ने सदोम के राजा से  
कहा परमप्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथिवी  
२३ का अधिकारी है उस की मैं यह किरिया खाता हूँ, कि  
जो कुछ तेरा है उस में से न तो मैं एक सूत और न  
जूती की बन्धनी न कोई और वस्तु लूंगा ऐसा न हो कि  
२४ तू कहने पाए कि अब्राम मेरे ही द्वारा धनी हुआ । पर  
जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और आनेर एश्कोल  
और मन्त्रे जो मेरे संग चले थे उन का भाग मैं फेर न दूंगा  
वे तो अपना अपना भाग ले रखें ॥

(इब्राहीम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन)

१५. इन बातों के पीछे यहोवा का यह वचन दर्शन

में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम

मत डर तेरी ढाल और तेरा अत्यन्त बड़ा फल मैं हूँ ।

२ अब्राम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वश हूँ और मेरे

घर का वारिस यह दमिश्की एलीएजेर होगा सो तू मुझे

३ क्या देगा । और अब्राम ने कहा मुझे तो तू ने वंश

४ नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न

वचन उस के पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा  
तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा । और ५  
उस ने उस को बाहर ले जाके कहा आकाश की ओर  
दृष्टि करके तारागण को गिन क्या तू उन को गिन  
सकता है फिर उस ने उस से कहा तेरा वंश ऐसा ही ६  
होगा । उस ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ६  
ने इस बात को उस के लेखे में धर्म गिना । और उस ७  
ने उस से कहा मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसूरियों के  
ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझ को इस देश का  
अधिकार दूँ । उस ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं कैसे जानूँ ८  
कि मैं इस का अधिकारी हूँगा । यहोवा ने उस से कहा ९  
मेरे लिये तीन बरस की एक कलार और तीन बरस की  
एक बकरी और तीन बरस का एक मेंढा और एक  
पिण्डुक और पिण्डुकी का एक बच्चा ले । इन सभी १०  
को लेकर उस ने बीच बीच से दो दो टुकड़े कर दिया और  
टुकड़ों को आम्हने साम्हने रखवा पर चिड़ियाओं को  
उस ने दो दो टुकड़े न किया । और जब जब मांसाहारी ११  
पक्षी लोथों पर झपटे तब तब अब्राम ने उन्हें उड़ा  
दिया । जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी १२  
नींद आई और देखा अत्यन्त भय और महा अन्धकार  
ने उसे छा लिया । तब यहोवा ने अब्राम से कहा यह १३  
निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर  
रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हों जायेंगे और  
वे उन को चार सौ बरस लों दुःख देंगे । फिर जिस १४  
जाति के वे दास होंगे उस को मैं दण्ड दूंगा और उस  
के पीछे वे बड़ा धन लेकर निकल आयेंगे । तू तो अपने १५  
पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा तुझे पूरे बुढ़ापे  
में मिट्टी दी जाएगी । पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर १६  
आयेंगे क्योंकि अब लों एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं  
हुआ । जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अन्धकार १७  
छा गया तब एक धूआ उठती हुई अंगेठी और एक  
जलता हुआ पत्तीता देख पड़ा जो उन टुकड़ों के बीच  
होकर निकल गया । उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ १८  
यह वाचा बान्धी, कि मिस्र के महानद से लेकर परात  
नाम बड़े नद लों जितना देश है उसे, अर्थात् केनियों, १९  
कनिजियों, कदूमनियों, हिस्तियों, परिजियों, रपाइयों, २०  
एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और यक्षियों का देश २१  
तेरे वंश को दिया है ॥

(इस्माएल की उत्पत्ति का वर्णन)

१६. अब्राम की स्त्री सारे तो कोई सन्तान न

जनी और उस के हागार नाम एक

मिस्री लौंडी थी । सो सारे ने अब्राम से कहा सुन यहोवा २



तो मेरी कोख बन्द किये है सो मेरी लौंडी के पास जा  
 ३ क्या जानिये मेरा घर उस के द्वारा बस जाए । सारै की  
 यह बात अब्राम ने मान ली । सो जब अब्राम को कनान  
 देश में रहते दस बरस बीत चुके तब उस की स्त्री सारै  
 ने अपनी मिस्त्री लौंडी हागार को लेकर अपने पति  
 ४ अब्राम को दिया कि वह उस की स्त्री हो । और वह  
 हागार के पास गया और वह गर्भवती हुई और जब उस  
 ने जाना कि मैं गर्भवती हूँ, तब वह अपनी स्वामिनी को  
 ५ अपने लेखे में तुच्छ गिनने लगी । तब सारै ने अब्राम  
 से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर  
 हो, मैं ने तो अपनी लौंडी को तेरी स्त्री कर दिया पर  
 जब उस ने जाना कि मैं गर्भवती हूँ तब वह मुझे तुच्छ  
 ६ गिनने लगी, सो यहोवा मेरे तेरे बीच में न्याय करे ।  
 अब्राम ने सारै से कहा सुन तेरी लौंडी तेरे बश में है  
 जैसा तुझे भावे तैसा ही उस से कर । सो सारै उस को  
 दुःख देने लगी और वह उस के साम्हने से भाग गई ।  
 ७ तब यहोवा के दूत ने उस को जंगल में शर के मार्ग  
 ८ पर जल के एक सोते के पास पाकर, कहा हे सारै की  
 लौंडी हागार तू कहां से आती और कहां को जाती है,  
 उस ने कहा मैं अपनी स्वामिनी सारै के साम्हने से भाग  
 ९ आई हूँ । यहोवा के दूत ने उस से कहा अपनी स्वामिनी  
 १० के पास लौटकर उस के दाब में रह । और यहोवा के  
 दूत ने उस से कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा बरन  
 ११ वह बहुतायत के मारे गिना भी न जाएगा । और यहोवा  
 के दूत ने उस से कहा सुन तू गर्भवती है और पुत्र  
 जनेगी सो उस का नाम इश्माएल<sup>१</sup> रक्खना क्योंकि  
 १२ यहोवा ने तेरे दुःख का हाल सुना है । और वह मनुष्य  
 बनैले गदहे के समान रहेगा उस का हाथ सब के विरुद्ध  
 उठेगा और सब के हाथ उस के विरुद्ध उठेंगे और वह  
 १३ अपने सब भाईबंधुओं के साम्हने बसा रहेगा । तब उस  
 ने यहोवा का नाम जिस ने उस से बातें की थी अत्ता-  
 एलरोई<sup>२</sup> रक्खकर कहा कि क्या मैं यहां भी उस को  
 १४ जाते हुए देखने पाई जाँ मेरा देखनेद्वारा है । इस  
 कारण उस कूप का नाम लहैरोई<sup>३</sup> कूआं पड़ा, वह तो  
 १५ कादेश और बेरेद के बीच है । सो हागार अब्राम का  
 जन्माया एक पुत्र जनी और अब्राम ने अपने पुत्र का  
 १६ नाम जिसे हागार जनी इश्माएल रक्खा । जब हागार  
 अब्राम के जन्माये इश्माएल को जनी उस समय अब्राम  
 छियासी बरस का था ॥

(खतना की विधि के ठहरने का वर्णन और इश्हाक की उत्पत्ति की प्रतिज्ञा )

## १७. जब अब्राम निबानवे बरस का हो

गया तब यहोवा उस को दर्शन  
 देकर कहने लगा मैं सर्वशक्तिमान् ईश्वर हूँ अपने को मेरे  
 सन्मुख जानके चल<sup>१</sup> और खरा रह । और मैं तेरे साथ २  
 वाचा बान्धूंगा और तेरे वंश को अत्यन्त ही बढ़ाऊंगा ।  
 तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उस से यों ३  
 बातें कहता गया, सुन मेरी वाचा जो तेरे साथ बन्धी ४  
 रहेगी इस लिये तू जातियों के वृन्द का मूलपुरुष हो  
 जाएगा । सो अब तेरा नाम अब्राम<sup>२</sup> न रहेगा तेरा नाम ५  
 इब्राहीम<sup>३</sup> रक्खा गया है क्योंकि मैं तुझे जातियों के वृन्द  
 का मूलपुरुष ठहरा देता हूँ । और मैं तुझे अत्यन्त ही ६  
 फुलाऊं फलाऊंगा और तुझ को जाति जाति का मूल  
 बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे । और मैं ७  
 तेरे साथ और तेरे पीछे पीढ़ी पीढ़ी लों तेरे वंश के साथ  
 भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं  
 तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा ।  
 और मैं तुझ को और तेरे पीछे तेरे वंश को भी यह सारा ८  
 कनान देश जिस में तू परदेशी होकर रहता है इस रीति  
 दूंगा कि वह युग युग उन की निज भूमि रहेगी और मैं ९  
 उन का परमेश्वर रहूंगा । फिर परमेश्वर ने इब्राहीम से  
 कहा तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना तू  
 और तेरे पीछे तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उस का  
 पालन करें । मेरे साथ बांधी हुई जो वाचा तुझे और १०  
 तेरे पीछे तेरे वंश का पालनी पड़ेगी सो यह है कि तुम  
 में से एक एक पुरुष का खतना हो । तुम अपनी अपनी ११  
 खलड़ी का खतना करा लेना जो वाचा मेरे और तुम्हारे  
 बीच में है उस का यही चिन्ह होगा । पीढ़ी पीढ़ी में केवल १२  
 तेरे वंश ही के लोग नहीं जो घर में उत्पन्न हों वा पर-  
 देशियों के रूपा देकर मोल लिये जाएँ ऐसे सब पुरुष भी  
 जब आठ दिन के हो जाएँ तब उन का खतना किया जाए ।  
 जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया १३  
 जाए उस का खतना अवश्य ही किया जाए, सो मेरी वाचा  
 जिन का चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी । जो १४  
 पुरुष खतनारहित रहे अर्थात् जिस की खलड़ी का खतना  
 न हो वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए,  
 क्योंकि उस ने मेरे साथ बान्धी हुई वाचा का तांडू दिया ॥  
 फिर परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा तेरी जो स्त्री सारै १५  
 है उस को तू अब सारै न कहना उस का नाम सारा  
 होगा । और मैं उस को आशिष दूंगा और तुझ को उस १६

(१) अर्थात् ईश्वर सुननेद्वारा । (२) अर्थात् तू सम्बद्धर्शी ईश्वर है ।  
 (३) मूल में उस के पीछे देखने । (४) अर्थात् जाते देखनेद्वारे का ।

(१) मूल में मेरे साम्हने चल । (२) अर्थात् उन्नत पिता । (३) अर्थात्  
 बहुता का पिता ।

के द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उस को ऐसी आशिष  
 दूंगा कि वह जाति जाति की मूलमाता हो जाएगी और  
 १७ उस के वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे । तब  
 इब्राहीम मुंह के बल गिरकर हंसा और मन ही मन  
 कहने लगा क्या सौ बरस के पुरुष के भी सन्तान होगा  
 १८ और क्या सारा जो नब्बे बरस की है जनेगी । और इब्रा-  
 हीम ने परमेश्वर से कहा इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे  
 १९ यही बहुत है । परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरी स्त्री सारा  
 तेरा जन्माया एक पुत्र जनेगी और तू उस का नाम  
 इसहाक रखना और मैं उस के साथ ऐसी वाचा बांधूंगा  
 जो उस के पीछे उस के वंश के लिये युग युग की वाचा  
 २० होगी । और इश्माएल के विषय में भी मैं ने तेरी सुनी है  
 मैं उसको भी आशिष देता हूँ और उसे कुलाजं  
 फलाजंगा और अत्यन्त ही बढ़ा दूंगा उस से बारह प्रधान  
 उत्पन्न होंगे और मैं उस से एक बड़ा जाति उपजाऊंगा ।  
 २१ पर मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जिसे  
 सारा अगले बरस के इसी नियत समय में तेरा जन्माया  
 २२ जनेगी । तब परमेश्वर ने इब्राहीम से बातें करनी बन्द  
 २३ की और उस के पास से ऊपर चढ़ गया । तब इब्राहीम  
 ने अपने पुत्र इश्माएल को और उस के घर में जितने  
 उत्पन्न हुए थे और जितने उस के रुपैये से मोल लिये  
 हुए थे, निदान उस के घर में जितने पुरुष थे उन सभी  
 को लेकर उसी दिन परमेश्वर के कहे के अनुसार उन की  
 २४ खलड़ी का खतना किया । जब इब्राहीम की खलड़ी  
 २५ का खतना हुआ तब वह निजानवे बरस का था । और  
 जब उस के पुत्र इश्माएल की खलड़ी का खतना हुआ  
 २६ तब वह तेरह बरस का हुआ था । इब्राहीम और उस के  
 पुत्र इश्माएल दोनों का खतना एक ही दिन में हुआ ।  
 २७ और उस के साथ ही उस के घर में जितने पुरुष थे क्या  
 घर में उत्पन्न हुए क्या परदेशियों के हाथ से मोल लिये  
 हुए सब का भी खतना हुआ ॥

**१८. इब्राहीम** मझे के बाजों के बीच कड़े घाम के  
 समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि

२ यहोवा ने उसे दर्शन दिया कि, उस ने आस उठाकर  
 दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन पुरुष मेरे साम्ने खड़े हैं,  
 सो यह देखकर वह उन से भेंट करने को तंबू के द्वार से  
 ३ दौड़ा और भूमि पर गिर दण्डवत् करके कहने लगा, हे  
 प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो अपने दास  
 के पास से चला न जा । थोड़ा सा जल लाया जाए  
 ४ और अपने पांव धोऊँ और इस बृद्ध के तले उठंगा  
 जाऊँ । फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उस से  
 ५ तुम अपने अपने जीव को ठण्डा करो तब उस के पीछे

आगे चलो क्योंकि तुम अपने दास के पास इसी लिये  
 आ गये हो । उन्होंने ने कहा जैसा तू कहता है तैसा ही कर । ६  
 सो इब्राहीम ने तंबू में सारा के पास कुर्ती से जाकर कहा  
 तीन सन्ना<sup>१</sup> मैदा कुर्ती से गून्ध और फुलके बना । फिर ७  
 इब्राहीम गाय बैल के भुण्ड में दौड़ा और एक कोमल  
 और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और  
 उस ने कुर्ती से उस को पकाया । तब उस ने मक्खन ८  
 और पूष और वह बछड़ा जो उस ने पकाया था लेकर  
 उन के आगे धर दिया और आप बृद्ध के तले उन के पास  
 खड़ा रहा और वे खाने लगे । तब उन्होंने ने उस से पूछा ९  
 तेरी स्त्री सारा कहाँ है उस ने कहा वह तो तंबू में है ।  
 उस ने कहा मैं बसन्त ऋतु में<sup>२</sup> निश्चय तेरे पास फिर १०  
 आऊंगा तब तेरी स्त्री सारा पुत्र जनेगी । और सारा तंबू  
 के द्वार पर जो इब्राहीम के पीछे था सुन रही थी । इब्रा- ११  
 हीम और सारा दोनों बहुत पुरनिये थे और सारा को स्त्री-  
 धर्म बन्द हो गया था । सो सारा मन में हंस कर कहने १२  
 लगी मैं जो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है तो क्या  
 मुझे यह सुख होगा । तब यहोवा ने इब्राहीम से कहा १३  
 सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मैं बुढ़िया हांकर सच-  
 मुच जनूंगी । क्या यहोवा के लिये कोई काम कठिन है १४  
 नियत समय में अर्थात् बसन्त ऋतु में<sup>२</sup> मैं तेरे पास फिर  
 आऊंगा और सारा पुत्र जनेगी । तब सारा डर के मारे १५  
 यह कहकर मुकर गई, कि मैं नहीं हंसी, उस ने कहा नहीं  
 तू हंसी तो थी ।

(सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन)

फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने १६  
 लगे और इब्राहीम उन्हें बिदा करने के लिए उन के संग  
 संग चला । तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूँ सो १७  
 क्या इब्राहीम से छिपा रखूं । इब्राहीम से तो निश्चय १८  
 एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथिवी की  
 सारी जातियां उस के द्वारा आशिष पाएंगी । क्योंकि मैं १९  
 ने इसी मनसा से उस पर मन लगाया है कि वह अपने  
 पुत्रों और परिवार को जो उस के पीछे रह जाएंगे ऐसी  
 आशा दे कि वे यहोवा के मार्ग को धरे हुए धर्म और  
 न्याय करते रहें इस लिये कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहीम  
 के विषय में कहा है उसे वह उस के लिए पूरा भी करे ।  
 फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिन्नाहट जो २०  
 बड़ी और उन का पाप जो बहुत भारी हो गया है, इस २१  
 लिये मैं उतर कर देखूंगा कि उस की जैसी चिन्नाहट मेरे  
 कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया कि  
 नहीं और न किया हो तो इसे मैं जानूंगा । सो वे पुरुष २२

(१) यह नपुष्प विशेष है । (२) मूल में जीवन के समय में ।

तो यहां से फिर मे सदीम की ओर जाने लगे पर इब्रा-  
 २३ हीम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहीम  
 उस के समीप जाकर कहने लगा क्या तू सचमुच दुष्ट के  
 २४ संग धर्मी को भी मिटाएगा। क्या जानिये उस नगर में  
 पचास धर्मी हों तो क्या तू सचमुच उस स्थान को  
 २५ मिटाएगा और उन पचास धर्मियों के कारण जो उस  
 में हों न छोड़ेगा। इस प्रकार का काम करना तुझ से  
 दूर रहे कि दुः के संग धर्मी को भी मार डाले और  
 धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो यह तुझ से दूर  
 २६ रहे क्या सारी पृथिवी का न्यायी न्याय न करे। यहोवा ने  
 कहा यदि मुझे सदीम में पचास धर्मी मिलें तो उन के  
 २७ कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर इब्राहीम ने  
 कहा हे प्रभु मुन मैं तो मिट्टी और राख हूं तो भी मैं ने  
 २८ इतनी दिठाई की कि तुझ से बातें करूं। क्या जानिये  
 उन पचास धर्मियों में पांच घट जाएं तो क्या तू पांच  
 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा  
 उस ने कहा यदि मुझे उस में पैंतालीस भी मिलें तो भी  
 २९ उस की नाश न करूंगा। फिर उस ने उस से यह भी  
 कहा क्या जानिये यहां चालीस मिलें उस ने कहा तो मैं  
 ३० चालीस के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उस ने कहा  
 हे प्रभु क्रोध न कर तो मैं कुछ और कहूं क्या जानिये  
 यहां तीस मिलें उस ने कहा यदि मुझे वहाँ तीस भी मिलें  
 ३१ तो भी ऐसा न करूंगा। फिर उस ने कहा हे प्रभु मुन  
 मैं ने इतनी दिठाई तो की है कि तुझ से बातें करूं क्या  
 जानिये उस में बीस मिलें उस ने कहा मैं बीस के कारण  
 ३२ भी उस का नाश न करूंगा। फिर उस ने कहा हे प्रभु  
 क्रोध न कर मैं एक ही बार और बोलूंगा क्या जानिये  
 उस में दस मिलें उस ने कहा तो मैं दस के कारण भी  
 ३३ उस का नाश न करूंगा। जब यहोवा इब्राहीम से बातें  
 कर चुका तब चला गया और इब्राहीम अपने स्थान को  
 लौटा ॥

**१९. सांभ** के वे दो दूत सदीम के पास आये

और लूत सदीम के फाटक के पास  
 बैठा था सो उन को देखकर वह उन से भेंट करने को  
 उठा और मुंह के बल भूमि पर गिर दण्डवत् करके कहा,  
 २ हे मेरे प्रभुओं अपने दास के घर में पधारो और रात  
 बिताना और अपने पांव धोओ फिर भोर को उठकर  
 अपना मार्ग लेना उन्होंने ने कहा सो नहीं हम चौक में  
 ३ रात बितायेंगे। और उस ने उन को बहुत बिनती करके  
 दबाया सो वे उस के घर की ओर चलकर भीतर गये  
 और उस ने उन के लिये जेवनार की और बिन खमीर

की रोटियां बनवा कर उन को खिलाई। उन के सो ५  
 जाने से पहले उस सदीम नगर के पुरुषों ने जवानों से  
 लेकर बूढ़ों तक बरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर  
 उस घर को घेर लिया, और लूत को पुकार कर कहने ५  
 लगे जो पुरुष आज रात को तेरे पास आये वे कहां हैं  
 उन को हमारे पास बाहर ले आ कि हम उन से भोग  
 करें। तब लूत उन के पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ ६  
 को अपने पीछे बन्द करके कहा, हे मेरे भाइयो ऐसी ७  
 बुराई न करो। मुनां मेरे दो बेटियां हैं जिन्होंने मेरे ८  
 लों पुरुष का मुंह नहीं देखा इच्छा हो तो मैं उन्हें  
 तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुम को जैसा अच्छा ९  
 लगे तैसा व्यवहार उन से करो तो करो पर इन पुरुषों  
 से कुछ न करो क्योंकि ये मेरी छूत के तले आये हैं।  
 उन्होंने कहा हट जा फिर वे कहने लगे तू एक परदेशी ९  
 आया तो यहां रहने के लिये पर अब न्यायी भी बन ९  
 बैठा है सो अब हम उन से भी अधिक तेरे साथ बुराई  
 करेंगे और वे उस पुरुष लूत को बहुत दवाने लगे और  
 किवाड़ तोड़ने के लिये निकट आये। तब उन पाहुनों १०  
 ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया  
 और किवाड़ को बन्द कर दिया। और उन्होंने ने छोटा ११  
 से ले बड़ों तक उन सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर  
 थे अन्धा कर दिया सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक १२  
 गये। फिर उन पाहुनों ने लूत से पूछा यहां तेरे और १२  
 कौन कौन हैं दामाद बेटे बेटियां वा नगर में तेरा जो  
 कोई हो उन को लेकर इस स्थान से निकल जा। क्योंकि १३  
 हम यह स्थान नाश करने पर हैं इस लिये कि इस की  
 चिन्ताहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने १४  
 हमें इस का नाश करने के लिये भेज भी दिया है। तब १४  
 लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिन के साथ उस  
 की बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा उठो  
 इस स्थान से निकल चलो क्योंकि यहोवा इस नगर  
 को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों के १५  
 लेखे में ठट्टा करनेहारा सा जान पड़ा। जब पह फटने १५  
 लगी तब दूतों ने यह कहके लूत से फुर्ती कराई कि चल  
 अपनी स्त्री और दोनों बेटियों को जो यहां हैं ले जा  
 नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा।  
 पर वह विलम्ब करता रहा सो यहोवा जो उस पर १६  
 कोमलता करता था इस से उन पुरुषों ने उस का हाथ  
 और उस की स्त्री और दोनों बेटियों के हाथ पकड़ लिये  
 और उस को निकालकर नगर के बाहर खड़ा कर १७  
 दिया। और जब उन्होंने ने उन को निकाला तब उस ने

(१) मूल में इस लिये आये। (२) मूल में मनुष्यों।

कहा अपना प्राण लेकर भाग जा पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना पहाड़ पर भाग जाना नहीं १८ तो तू भस्म हो जाएगा । लूत ने उस से कहा हे प्रभु ऐसा १९ न कर । सुन तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तू ने इस में बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता कहीं ऐसा न हो कि यह विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं । २० देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है मुझे वहीं भाग जाने दे क्योंकि वह २१ छोटा तो है और इस प्रकार मेरे प्राण की रक्षा हो । उस ने उस से कहा सुन मैं ने इस विषय में भी तेरी बिनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तू ने की है उस २२ को मैं न उलटूंगा । फुर्ती करके वहां भाग जा क्योंकि जब लौं तू वहां न पहुंचे तब लौं मैं कुछ न कर सकूंगा । २३ इसी कारण उस नगर का नाम 'सोअर' पड़ा । लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथिवी पर उदय २४ हुआ । तब यशोवा ने अपनी ओर से सवेाम और अमोरा २५ पर आकाश से गन्धक और आग बरसाई, और उन नगरों और उस संपूर्ण तराई के नगरों के सब निवासियों २६ और भूमि की सारी उपज समेत उलट दिया । लूत की स्त्री ने उस के पीछे से दृष्टि फेरके ताका और वह लौन २७ का खंभा हो गई । मार के इब्राहीम उठकर उस स्थान का गया जहां वह यशोवा के सन्मुख खड़ा रहा था, और २८ सदांम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर ताककर क्या देखा कि उस देश में से भट्टी का सा २९ धूआं उठ रहा है । जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों का जिन में लूत रहता था उलट कर नाश करना चाहा तब उस ने इब्राहीम की सुधि करके लूत को तो ३० उलटने से बचा दिया ॥

लूत जो सोअर में रहते डरता था सो अपनी दोनों बेटियों समेत उस स्थान को छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया और वहां की एक गुफा में वह और उस की दोनों बेटियां ३१ रहने लगीं । तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा हमारा पिता बूढ़ा है और पृथिवी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो ३२ संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए । सो आ हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उस के साथ सोएँ और इसी रीति अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें । ३३ सो उन्होंने ने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया तब बड़ी बेटो जाकर अपने पिता के पास सोई और उस को न तो उस के सोने के समय न ३४ उस के उठने के समय कुछ भी चेत था । दूसरे दिन

(१) अर्थात् छोटी । (२) वा देस ।

बड़ी ने छोटी से कहा सुन कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई सो आज भी रात को हम उस को दाखमधु पिलाएँ तब तू जाकर उस के साथ सो कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें । सो उन्होंने ने उस दिन ३५ भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया और छोटी बेटो जाकर उस के पास सोई पर उस को उस के भी सोने और उठने के समय चेत न था । इसी प्रकार ३६ में लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई । और बड़ी एक पुत्र जनी और उस का नाम 'मोआब' ३७ रक्खा वह मोआब नाम जाति का जो आज लों है मूलपुरुष हुआ । और छोटी भी एक पुत्र जनी और ३८ उस का नाम 'बेनग्मी' रक्खा वह अम्मोान्वंशियों का जो आज लों है मूलपुरुष हुआ ॥

(इसहाक की उत्पत्ति का वर्णन)

२०. फिर इब्राहीम वहां से कूच कर दक्खिन देश में आकर कादेश

और शूर के बीच में ठहरा और गरार नगर में परदेशी होकर रहने लगा । और इब्राहीम अपनी स्त्री सारा के २ विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहिन है सो गरार के राजा अबीमेलोक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया । रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलोक के पास आकर ३ कहा सुन जिन स्त्री को तू ने रक्ख लिया है उस के कारण तू मुझ सा है क्योंकि वह सुहागिन है । अबीमेलोक तो ४ उस के पास न गया था सो उस ने कहा हे प्रभु क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा । क्या उसी ने मुझ से ५ नहीं कहा कि वह मेरी बहिन है और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है मैं ने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया । परमेश्वर ने उस से स्वप्न में कहा हां मैं भी ६ जानता हूं कि अपने मन की खराई से तू ने यह काम किया है और मैं ने तुझे रांक भी रक्खा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे इसी कारण मैं ने तुझ को उसे छूने नहीं दिया । सो अब उस पुरुष की स्त्री को उसे फेर दे ७ क्योंकि वह नबी है और तेरे लिये प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा पर यदि तू उस को न फेर दे तां जान रक्ख कि तू और तेरे जितने लांग हैं सब निश्चय मर जाएंगे । बिहान को अबीमेलोक ने तड़के उठ कर अपने ८ सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वे निपट डर गये । तब अबीमेलोक ने इब्राहीम को ९ बुलवाकर कहा तू ने हम से यह क्या किया है और मैं ने

(१) अर्थात् पिता का वीर्य । (२) अर्थात् मेरे कुटुम्बी का बेटा । (३) मूल में अपनी बेटियों की निर्दोषता से ।

तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू ने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर  
 ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है तू ने मुझ से जो काम  
 १० किया है सो करने के योग्य न था । फिर अबीमेलोक ने  
 इब्राहीम से पूछा तू ने ऐसा क्या देखा कि यह काम  
 ११ किया है । इब्राहीम ने कहा मैं ने तो यह सोचा था कि  
 इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भय न होगा सो ये  
 १२ लोग मेरी स्त्री के कारण मेरा घात करेंगे । और सचमुच  
 वह मेरी बहिन है ही वह मेरे पिता की बेटी तो है पर  
 १३ मेरी माता की बेटी नहीं सो वह मेरी स्त्री हो गई । और  
 जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर घूमने  
 की आज्ञा दी तब मैं ने उस से कहा इतनी कृपा तुझे  
 मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाएं वहां  
 १४ वहां तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है । तब  
 अबीमेलोक ने भेड़ बकरी गाय बैल और दास दासियां  
 लेकर इब्राहीम को दी और उस की स्त्री सारा को भी  
 १५ उसे फेर दिया । और अबीमेलोक ने कहा देख मेरा देश  
 तेरे साम्हने पड़ा है जहां तुझे भावे वहां बस ।  
 १६ और सारा से उस ने कहा सुन मैंने तेरे भाई के रूपे के  
 हजार टुकड़े दिये हैं सुन तेरे सारे संगियों के साम्हने वही  
 तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सभों के साम्हने तू ठीक  
 १७ होगी । तब इब्राहीम ने यहेवा से प्रार्थना की और यहेवा  
 ने अबीमेलोक और उस की स्त्री और दासियों को चंगा  
 १८ किया और वे जनने लगीं । क्योंकि यहेवा ने इब्राहीम  
 का स्त्री सारा के कारण अबीमेलोक के घर की सब स्त्रियों  
 की केशों को पूरी रीति से बन्द कर दिया था ॥

२१. सो यहेवा ने जैसा कहा था वैसा ही  
 सारा की सुधि लेकर उस के साथ

२ अपने बचन के अनुसार किया । अर्थात् सारा इब्राहीम  
 से गर्भवती होकर उस के बुढ़ापे में उसी नियत समय पर  
 जो परमेश्वर ने उस से ठहराया था एक पुत्र जनी ।  
 ३ और इब्राहीम ने अपने जन्माये उस पुत्र का नाम जिसे  
 ४ सारा जनी थी इस्हाक रक्खा । और जब उस का पुत्र  
 इस्हाक आठ दिन का हुआ तब उस ने परमेश्वर की  
 ५ आज्ञा के अनुसार उस का खतना किया । और जब  
 इब्राहीम का पुत्र इस्हाक उत्पन्न हुआ तब वह एक सौ  
 ६ बरस का था । उन दिनों सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे  
 हंसमुख कर दिया है जो कोई सुने सो मेरे कारण हंस  
 ७ देगा । फिर उस ने कहा कोई कभी इब्राहीम से न कह  
 सकता था कि सारा लड़के को दूध पिलाएगी पर देखो  
 ८ मैं उस के बुढ़ापे में पुत्र जनी । और वह लड़का बड़ा

(१) अर्थात् हंसी ।

और उस का दूध छुड़ाया गया और इस्हाक के दूध  
 छुड़ाने के दिन इब्राहीम ने बड़ी जेबनार की । तब सारा ९  
 को मिस्री हागार का पुत्र जिसे वह इब्राहीम का जन्माया  
 जनी थी हंसी करता हुआ देख पड़ा । सो उस ने इब्रा- १०  
 हीम से कहा इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे  
 क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इस्हाक के साथ ११  
 भागी न होगा । यह बात इब्राहीम को अपने पुत्र के ११  
 कारण बहुत बुरी लगी । तब परमेश्वर ने इब्राहीम से १२  
 कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा  
 न लगे जो बात सारा तुझ से कहे उसे मान क्योंकि जो १३  
 तेरा वंश कहलाएगा सो इस्हाक ही से चलेगा । दासी १३  
 के पुत्र से भी मैं एक जाति उपजा तो दूंगा इस लिये कि  
 वह तेरा वंश है । सो इब्राहीम ने बिहान को तड़के १४  
 उठकर रोटी और पानी से भरी हुई चमड़े की एक थैली  
 ले हागार को दी और उस के कंधे पर रक्खी और उस  
 के लड़के को भी उसे देकर उस को बिदा किया सो वह  
 चली गई और बेशोंया के जंगल में घूमने फिरने लगी ।  
 जब थैली का जल चुक गया तब उस ने लड़के को एक १५  
 झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उस से तीर भर १६  
 के टप्ये पर दूर जाकर उस के साम्हने यह सोचकर बैठ  
 गई कि मुझ को लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े तब वह  
 उस के साम्हने बैठी हुई चिल्ला चिल्लाके रोने लगी । और १७  
 परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उस के दूत ने  
 स्वर्ग से हागार को पुकारके कहा हे हागार तुझे क्या  
 हुआ मत डर क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उस  
 की बात परमेश्वर को सुन पड़ी है । उठ अपने लड़के १८  
 को उठाकर अपने हाथ से थाम ले क्योंकि मैं उस से एक  
 बड़ी जाति उपजाऊंगा । परमेश्वर ने उस की आंखें खोल १९  
 दीं और उस को एक कूबां देख पड़ा सो उस ने जाकर  
 थैली को जल से भरके लड़के को पिला दिया । और २०  
 परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब वह बड़ा  
 हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी हो गया । वह २१  
 तो पारान नाम जंगल में रहा करता था और उस की  
 माता ने उस के लिये मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई ॥

उन दिनों में अबीमेलोक अपने सेनापति पीकोल २२  
 को संग लेकर इब्राहीम से कहने लगा जो कुछ तू करता  
 है उस में परमेश्वर तेरे संग रहता है । सो अब मुझ से २३  
 यहां परमेश्वर की इस विषय में किरिया खा कि मैं  
 न तो तुझ से छल करूंगा और न कभी तेरे वंश से  
 जैसी प्रीति से तू ने मेरे साथ बर्ताव किया है तैसी ही  
 प्रीति मैं तुझ से और इस देश से जहां मैं परदेशी हूं २४  
 करूंगा । इब्राहीम ने कहा मैं किरिया खाऊंगा । और २५

इब्राहीम ने अबीमेलोक को एक कूप के विषय में जो अबी-  
मेलोक के दासों ने बरीयाई से ले लिया था उसलहना  
२६ दिया। तब अबीमेलोक ने कहा मैं नहीं जनता कि  
किस ने यह काम किया और तू ने भी मुझ को न जताया  
२७ था और न मैं ने आज तक यह सुना था। तब इब्राहीम  
ने भेड़ बकरी और गाय बैल लेकर अबीमेलोक को दिये  
२८ और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। और इब्राहीम  
२९ ने भेड़ की सात बच्ची अलग कर रखीं। तब अबीमेलोक  
ने इब्राहीम से पूछा इन सात बच्चियों का जो तू ने अलग  
३० कर रखी हैं क्या प्रयोजन है। उस ने कहा तू इन  
सात बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से  
३१ ले कि मैं ने यह कूआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस  
स्थान में आपस में किरिया खाई इसी कारण उस का  
३२ नाम बेशेंबा पड़ा। जब उन्होंने ने बेशेंबा में परस्पर  
वाचा बांधी तब अबीमेलोक और उस का सेनापति पीकाल  
३३ उठकर पलिशतियों के देश में लौट गये। और इब्राहीम  
ने बेशेंबा में भाऊ का एक वृद्ध लगाया और वहां यहोवा  
३४ जो सनातन ईश्वर है उस से प्रार्थना की। और इब्राहीम  
पलिशतियों के देश में परदेशी होकर बहुत दिन रहा ॥

(इब्राहीम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन)

**२२.** इन बातों के पीछे परमेश्वर ने इब्राहीम से

यह कहकर उस की परीक्षा की कि हे  
इब्राहीम उस ने कहा क्या आशा। उस ने कहा अपने  
२ पुत्र को अर्थात् अपने एकलौते इसहाक को जिस से तू  
प्रेम रखता है संग लेकर मोरिय्याह देश में चला जा  
और वहां उस को एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे  
३ बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। सो इब्राहीम ने बिहान  
को लड़के उठ अपने गदहे पर काठी कसकर अपने दो  
सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संगलिया और होमबलि  
के लिये लकड़ी और ली तब कूच करके उस स्थान की  
ओर चला जिस की चर्चा परमेश्वर ने उस से की थी।  
४ तीसरे दिन इब्राहीम ने आंखें उठाकर उस स्थान को  
५ दूर से देखा। और उस ने अपने सेवकों से कहा गदहे  
के पास यहीं ठहरे रहां यह लड़का और मैं वहां लों जाकर  
और दण्डवत् करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा।  
६ सो इब्राहीम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र  
इसहाक पर लादी और आग और लुरी को अपने हाथ  
७ में लिया और वे दोनों संग संग चले। इसहाक ने  
अपने पिता इब्राहीम से कहा हे मेरे पिता उस ने कहा हे  
मेरे पुत्र क्या बात है? उस ने कहा देख आग और  
८ लकड़ी तो हैं पर होमबलि के लिये भेड़ कहाँ है। इब्राहीम

(१) अर्थात् किरिया का कूआं। (२) मूल में मुझे देख।

ने कहा हे मेरे पुत्र परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय  
आप ही करेगा सो वे दोनों संग संग चले। और वे ९  
उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उस को बताया था  
पहुँचे तब इब्राहीम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन  
चुनकर रक्खा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी  
पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहीम ने हाथ १०  
बढ़ाकर लुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे।  
तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उस को पुकारके कहा हे ११  
इब्राहीम हे इब्राहीम उस ने कहा क्या आशा?। उस १२  
ने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उस से  
कुछ कर क्योंकि तू ने जो मुझ से अपने पुत्र बरन अपने  
एकलौते पुत्र को भी नहीं रक्ख छोड़ा इस से मैं अब  
जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब १३  
इब्राहीम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि मेरे पीछे  
एक भेड़ा अपने सींगों से एक भूँसा में बन्ना हुआ है  
सो इब्राहीम ने जाके उस भेड़े को लिया और अपने पुत्र  
की सन्ती होमबलि करके चढ़ाया। और इब्राहीम ने १४  
उस स्थान का नाम यहांवा यिरे<sup>२</sup> रक्खा इस के अनुसार  
आज लों भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर  
उपाय किया जाएगा। फिर यहांवा के दूत ने दूसरी १५  
बार स्वर्ग से इब्राहीम को पुकारके कहा, यहोवा की यह १६  
बाणी है कि मैं अपनी ही यह किरिया खाता हूँ कि तू ने  
जो यह काम किया है कि अपने पुत्र बरन अपने एकलौते १७  
पुत्र को भी नहीं रक्ख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे  
आशिष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के  
तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के  
समान अनगिनित करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं  
के नगरों का अधिकारी हांगा। और पृथ्वी की सारी १८  
जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी  
क्योंकि तू ने मेरी बात मानी है। तब इब्राहीम अपने १९  
सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशेंबा को संग  
संग गये और इब्राहीम बेशेंबा में रहता रहा ॥

इन बातों के पीछे इब्राहीम को यह सन्देश मिला २०  
कि मिल्का से तेरे भाई नाहोर के सन्तान जन्मे हैं।  
मिल्का के पुत्र तो वे हुए अर्थात् उस का जेठा उस और उस २१  
का भाई बूज और कमूएल जो अराम का पिता हुआ।  
फिर केसेद हजो पिल्दाश यिद्लाप और बतूएल। २२  
इन आठों को मिल्का इब्राहीम के भाई नाहोर के जन्माये २३  
जनी। और बतूएल ने रिबका को जन्माया। फिर नाहोर २४  
के रुमा नाम एक सुरैतिन भी थी जो तेबह गहम तहश  
और माका को जनी ॥

(१) मूल में मुझे देख। (२) अर्थात् यहोवा उपाय करेगा। (३) मूल में फाटक।

(सारा की मृत्यु और अन्नक्रिया का वर्णन)

## २३. सारा तो एक सौ सत्ताईस वरम की अवस्था को पहुँची और

- २ जब सारा की इतनी अवस्था हुई । तब वह किर्यतर्बा में मर गई यह तो कनान देश में है और हेब्रोन भी कहा-  
 ३ जाता है सो इब्राहीम सारा के लिये रोने पीटने को वहां  
 ४ गया । तब इब्राहीम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों  
 ५ से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच उपरी और परदेशी हूँ  
 ६ मुझे अपने बीच में कबरिस्तान के लिये ऐसी भूमि दो  
 ७ जो मेरी निज की हो जाए कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के  
 ८ अपनी आंख की ओट करूँ । हित्तियों ने इब्राहीम से  
 ९ कहा, हे हमारे प्रभु हमारी सुन तू तो हमारे बीच में बड़ा  
 १० प्रधान है सो हमारी कबरों में से जिस को तू चाहे उस में  
 ११ अपने मुर्दे को गाड़ हम में से कोई तुझे अपनी कबर के  
 १२ लेने से न रोकेंगा कि तू अपने मुर्दे को उस में गाड़ने  
 १३ न पाये । तब इब्राहीम उठ कर खड़ा हुआ और हित्तियों  
 १४ के सन्मुख जो उस देश के निवासी थे दण्डवत् करके,  
 १५ कहा यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को  
 १६ गाड़के अपनी आंख की ओट करूँ तो मेरी सुनकर सोहर  
 १७ के पुत्र एप्रोन से मेरे लिये बिनती करो, कि वह अपनी  
 १८ मकपेलावाली गुफा जो उस की भूमि के सिवाने पर है  
 १९ मुझे दे दे और उस का पूरा दाम ले कि वह तुम्हारे  
 २० बीच कबरिस्तान के लिये मेरी निज भूमि हो जाए ।  
 २१ एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था सो जितने  
 २२ हित्ती उस के नगर के फाटक होकर भीतर जाते थे उन  
 २३ सभों के सुनते उस ने इब्राहीम को उत्तर दिया कि, हे  
 २४ मेरे प्रभु ऐसा नहीं मेरी सुन वह भूमि मैं तुम्हे देता हूँ  
 २५ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुम्हे देता हूँ अपने  
 २६ जातिभाइयों के सन्मुख मैं उसे तुम्हें दे दिये देता हूँ सो  
 २७ अपने मुर्दे को कबर में रख । तब इब्राहीम ने उस देश  
 २८ के निवासियों के साम्हने दण्डवत् की, और उन के  
 २९ सुनते एप्रोन से कहा यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन उस  
 ३० भूमि का जो दाम हो वह मैं देने चाहता हूँ उसे मुझ से  
 ३१ ले ले तब मैं अपने मुर्दे को वहां गाड़ूंगा । एप्रोन ने  
 ३२ इब्राहीम को यह उत्तर दिया कि, हे मेरे प्रभु मेरी सुन  
 ३३ उस भूमि का दाम तो चार सौ शेकेल रूपा है पर मेरे  
 ३४ और तेरे बीच में यह क्या है अपने मुर्दे को कबर में  
 ३५ रख । इब्राहीम ने एप्रोन की मानकर उस को उतना  
 ३६ रुपया तौल दिया जितना उस ने हित्तियों के सुनते कहा  
 ३७ था अर्थात् चार सौ ऐसे शेकेल जो व्योपारियों में चलते  
 ३८ थे । सो एप्रोन की भूमि जो मग्न के सन्मुख की मकपेला

(१) मूल में परमेश्वर का ।

में थी वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो  
 उस में और उस के चारों ओर के सिवानों में थे,  
 जितने हित्ती उस के नगर के फाटक होकर भीतर जाते १८  
 थे उन सभों के साम्हने इब्राहीम के अधिकार में पक्की १९  
 रीति से आ गई । इस के पीछे इब्राहीम ने अपनी स्त्री २०  
 सारा को उस मकपेलावाली भूमि की गुफा में जो मग्न  
 के अर्थात् हेब्रोन के साम्हने कनान देश में है मिट्टी  
 दी । और वह भूमि गुफा समेत हित्तियों की ओर से २०  
 कबरिस्तान के लिये इब्राहीम के अधिकार में पक्की रीति  
 से आ गई ॥

(इसहाक के विवाह का वर्णन)

## २४. इब्राहीम बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया

हो गया और यहोवा ने सब  
 बातों में उस को आशिष दी थी । सो इब्राहीम ने २  
 अपने उस दास से जो उस के घर में पुरनिया और उस  
 की सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा अपना हाथ मेरी ३  
 जांघ के नीचे रख, और मुझ से आकाश और पृथिवी ३  
 के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में किरिया खा कि मैं  
 तेरे पुत्र के लिये कनानियों की लड़कियों में से जिन के  
 बीच तू रहनेहारा है किसी को न ले आऊंगा । मैं तेरे ४  
 देश में तेरे ही कुटुम्बियों के पास जाकर तेरे पुत्र इस-  
 हाक के लिये एक स्त्री ले आऊंगा । दास ने उस से ५  
 कहा क्या जानिये वह स्त्री इस देश में मेरे पीछे आने न  
 चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू ६  
 आया है ले जाना पड़ेगा । इब्राहीम ने उस से कहा ६  
 चौकस रह मेरे पुत्र को वहां न ले जाना । स्वर्ग का ७  
 परमेश्वर यहोवा जिस ने मुझे मेरे पिता के घर से और  
 मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझ से किरिया खाकर  
 कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा वही अपना दूत ८  
 तेरे आगे आगे भेजेगा सो तू मेरे पुत्र के लिये वहां से  
 एक स्त्री ले आएगा । और यदि वह स्त्री तेरे पीछे आने ८  
 न चाहे तब तो तू मेरी इस किरिया से छूट जाएगा पर  
 मेरे पुत्र को वहां न ले जाना । तब उस दास ने अपने ९  
 स्वामी इब्राहीम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर  
 उस से इसी विषय की किरिया खाई । तब वह १०  
 दास अपने स्वामी के ऊंटों में से दस ऊंट  
 छांटकर उस के सब उत्तम उत्तम पदार्थों  
 में से कुछ कुछ लेकर चला और अरमहरैम में नाहोर  
 के नगर के पास पहुँचा । और उस ने ऊंटों को नगर के ११  
 बाहर एक कूप के पास बैठाया वह सांभ का समय था  
 जब स्त्रियां जल भरने के लिये निकलती हैं । सो वह १२

(१) अर्थात् दोआब में का अराम ।

कहने लगा हे मेरे स्वामी इब्राहीम के परमेश्वर यहोवा आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहीम से करुणा का व्यवहार कर । देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियाँ जल भरने के लिये निकली आती हैं । सो ऐसा हो कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ और वह कहें कि ले पी ले पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊँगी, सो वही हो जिसे तू अपने दास इसहाक के लिये ठहराया हो इसी रीति मैं जान लूँगा कि तू ने मेरे स्वामी से करुणा का व्यवहार किया है । वह कहता ही था कि रिबका जो इब्राहीम के भाई नाहोर के जन्माये मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी सो कन्धे पर घड़ा लिये हुए निकली आई । वह अति सुन्दर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मंह न देखा था वह सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई । तब वह दास उस से भेंट करने को दौड़ा और कहा अपने घड़े में से तानिक पानी मुझे पिला दे । उस ने कहा हे मेरे प्रभु ले पी ले और उस ने फुर्ती से घड़ा उतारकर हाथ में लिये लिये उस को पिला दिया जब वह उस को पिला चुकी तब कहा मैं तेरे ऊँटों के लिये भी पानी तब लौं भरती रहूँगी जब लौं वे पी न चुकें । तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में उण्डेलकर फिर कूप पर भरने को दौड़ गई और उस के सब ऊँटों के लिये पानी भर दिया । और वह पुरुष उस की ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सुफल किया है कि नहीं । जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आध तोले का सोने का एक नथ्य निकालकर उस को दिया और दस तोले के सोने के कड़े उस के हाथों में पहिना दिये, और पूछा तू किम की बेटी है यह मुझ को बता दे क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिये स्थान है । उस ने उस को उत्तर दिया मैं तो नाहोर के जन्माये मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ । फिर उस ने उस से कहा हमारे यहां पुत्राल और चारा बहुत है और टिकने के लिये स्थान भी है । तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दण्डबत् करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहीम का परमेश्वर यहोवा कि उस ने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया यहोवा ने मुझ को ठीक मार्ग से मेरे स्वामी के भाई-बन्धुओं के घर पर पहुँचा दिया है । और उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह मारा वृत्तांत कह सुनाया । तब लाबान जो रिबका का भाई था सो

बाहर सोते के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा । और जब उस ने वह नथ्य और अपनी बहिन रिबका के हाथों में वे कड़े भी देखे और उस की यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझ से ऐसी ऐसी बातें कहीं तब उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है । उस ने कहा हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ तू क्यों बाहर खड़ा है मैं ने घर को और ऊँटों के लिये भी स्थान तैयार किया है । और वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर पुत्राल और चारा दिया और उस के और उस के संगी जनों के पांव धोने को जल दिया । तब इब्राहीम के दास के आगे जलपान के लिये कुछ रक्खा गया पर उस ने कहा मैं जब लौं अपना प्रयोजन नकह दू तब लौं कुछ न खाऊँगा लाबान ने कहा कह दे । तब उस ने कहा मैं तो इब्राहीम का दास हूँ । और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशिष दी है सो वह बढ़ गया है और उस ने उस को भेड़ बकरी गाय बैल सेना रूपा दास दासियाँ ऊँट और गदहे दिये हैं । और मेरे स्वामी की स्त्री सारा उस का जन्माया बुढापे में एक पुत्र जनी और उस पुत्र को इब्राहीम ने अपना सब कुछ दिया है । और मेरे स्वामी ने मुझ से यह किरिया खिलाई कि मैं तेरे पुत्र के लिये कनानियों की लड़कियों में से जिन के देश में तू रहता है कोई स्त्री न ले आऊँगा । मैं तेरे पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर तेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊँगा । तब मैं ने अपने स्वामी से कहा क्या जानिये वह स्त्री मेरे पीछे न आए । उस ने मुझ से कहा यहोवा जिस के साम्हने अपने को जानकर मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सुफल करेगा सो तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में मेरे पुत्र के लिये एक स्त्री ले आ सकेगा । तू तब ही मेरी इस किरिया से छूटेगा जब मेरे कुल के लोगों के पास पहुँचेगा अर्थात् यदि वे तुझे कोई स्त्री न दें तो तू मेरी किरिया से छूटेगा । सो मैं आज उस सोते के निकट आकर कहने लगा हे मेरे स्वामी इब्राहीम के परमेश्वर यहोवा यदि तू मेरी इस यात्रा को सुफल करता हो, तो देख मैं जल के इस सोते के निकट खड़ा हूँ सो ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिये निकल आए और मैं उस से कहूँ अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझ से कहे पी ले और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिये भी भरूँगी वह वही

(१) मूल में जिस के साम्हने ।



स्त्री हो जिस को तू ने मेरे स्वामी के पुत्र के लिये  
 ४५ उहराया हो। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि  
 रिबका कन्धे पर घड़ा लिये हुए निकल आई फिर वह  
 सोते के पास उतरके भरने लगी और मैं ने उस से  
 ४६ कहा मुझे पिला दे। और उस ने फुर्ती से अपने घड़े  
 को कन्धे पर से उतारके कहा ले पी ले पीछे मैं तरे  
 ४७ जंटों को भी पिलाऊंगी सो मैं ने पी लिया और उस ने  
 तू किस की बेटी है और उस ने कहा मैं तो नाहोर के  
 जन्माये मिल्का के पुत्र बतूल की बेटी हूँ तब मैं ने  
 उस की नाक में वह नत्थ और उस के हाथों में वे कड़े  
 ४८ पहिना दिये। फिर मैं ने सिर भुका कर यहोवा को  
 दण्डवत् किया और अपने स्वामी इब्राहीम के परमेश्वर  
 यहोवा को धन्य कहा क्योंकि उस ने मुझे ठीक मार्ग  
 से पहुँचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिये उस की  
 ४९ भतीजी को ले जाऊँ। सो अब यदि तुम मेरे स्वामी के  
 साथ कृपा और सबाई का व्यवहार करने चाहते हो  
 तो मुझ से कहाँ और यदि न चाहते हो तो भी मुझ से  
 ५० कह दो कि मैं दहिनी ओर वा बाई ओर फिरोँ। तब  
 लावान और बतूल ने उत्तर दिया यह बात यहोवा  
 की ओर से हुई है सो हम लोग तुझ से न तो भला  
 ५१ कह सकते हैं न बुरा। देख रिबका तरे साम्हने है उस  
 को ले जा और वह यहोवा के कहे के अनुसार तरे  
 ५२ स्वामी के पुत्र की स्त्री हो जाए। उन का यह बचन  
 सुनकर इब्राहीम के दास ने भूमि पर गिरके यहोवा  
 ५३ को दण्डवत् किया। फिर उस दास ने सोने और रूपे  
 के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिये और  
 उस के भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल  
 ५४ वस्तुएं दीं। तब वह अपने संगी जनों समेत खाने  
 पीने लगा और रात वहीं बिताई और तड़के उठकर  
 ५५ कहा मुझे अपने स्वामी के पास जाने के लिये बिदा  
 करो। रिबका के भाई और माता ने कहा कन्या को  
 हमारे पास कुछ दिन अर्थात् कम से कम दस दिन  
 ५६ रहने दे फिर उस के पीछे वह चली जाएगी। उस ने  
 उन से कहा यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सुफल किया  
 है सो तुम मुझे मत रोको अब मुझे बिदा कर दो कि  
 ५७ मैं अपने स्वामी के पास जाऊँ। उन्होंने ने कहा हम  
 कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या  
 ५८ कहती है। सो उन्होंने रिबका को बुलाकर उस से पूछा  
 क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी उस ने कहा  
 ५९ हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहिन रिबका  
 और उस की धाई और इब्राहीम के दास और उस के

जन सभों को बिदा किया। और उन्होंने रिबका को ६०  
 आशीर्वाद देके कहा हे हमारी बहिन तू हजारों लाखों  
 की आदिमाता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के ६१  
 नगरों का अधिकारी हो। इस पर रिबका अपनी सहे-  
 लियों समेत चली और जंट पर चढ़के उस पुरुष के पीछे ६२  
 हो ली सो वह दास रिबका को साथ लेकर चल  
 दिया। इसहाक को जो दक्खिन देश में रहता था सो ६३  
 लहैरोई नाम कृएं से होकर चला आता था। और ६४  
 माझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिये  
 निकला था कि आखें उठाकर क्या देखा कि जंट चले  
 आते हैं। और रिबका ने भी आख उठाकर इसहाक ६५  
 को देखा और देखते ही जंट पर से उतर पड़ी। तब ६६  
 उस ने दास से पूछा जो पुरुष मैदान पर हम से मिलने  
 को चला आता है सो कौन है दास ने कहा वह तो  
 मेरा स्वामी है तब रिबका ने बुका लेकर अपने मुँह को  
 ढांप लिया। और उस दास ने इसहाक से अपना सारा ६७  
 वृत्तान्त बर्णन किया। तब इसहाक रिबका को अपनी ६८  
 माता सारा के तंबू में ले आया और उस को ब्याहकर  
 उस से प्रेम किया और इसहाक को माता की मृत्यु के  
 पीछे शान्ति हुई ॥

(इब्राहीम के उत्तरचरित्र और मृत्यु का वर्णन)

**२५. इब्राहीम ने और एक स्त्री की जिस**

का नाम कतूरा है। और २

वह उस के जन्माये जिन्नान योचान मदान मिद्यान ३  
 यिशाबाक और शूह को जनी। और योचान ने शवा ४  
 और ददान को जन्माया और ददान के वंश में ५  
 अशरर, लतूशी और लुम्मी लोग उपजे। और मिद्यान ६  
 के पुत्र एपा एपेर हनोक अबीदा और एल्दा हुए ७  
 ये सब कतूरा के सन्तान हुए। इसहाक को तो ८  
 इब्राहीम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी ९  
 सुरैतियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी १०  
 अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। ११  
 इब्राहीम की सारी अवस्था एक सी पचहत्तर बरस की १२  
 हुई। और इब्राहीम का दीर्घायु होने पर बरन पूरे बुढ़ापे १३  
 की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में १४  
 जा मिला। और उस के पुत्र इसहाक और इसहाक ने १५  
 उस को हिस्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की मझे के सन्मुख- १६  
 वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उस में मिट्टी १७  
 दी, अर्थात् जो भूमि इब्राहीम ने हिस्तियों से माल १८  
 ली थी उसी में इब्राहीम और उस की स्त्री सारा दोनों १९  
 को मिट्टी दी गई। इब्राहीम के मरने के पीछे परमेश्वर २०

(१) मूल में फाटक। (२) मूल में अपनी माता के पीछे।

ने उस के पुत्र इसहाक को जो लहैरोई नाम कूप के पास रहता था आशिष दी ॥

(इश्माएल की वंशावली)

- १२ इब्राहीम का पुत्र इश्माएल जिस को सारा की लौएडी भिस्त्री हागार इब्राहीम का जन्माया जनी थी उस  
१३ की यह वंशावली है । इश्माएल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है अर्थात् इश्माएल का जेठा पुत्र तो  
१४ नबायोत फिर केदार अद्बेल भिबसाम । मिश्मा दूमा  
१५, १६ मस्सा, हदर तेमा यतूर नापीश और केदमा । इश्माएल के पुत्र ये ही हुए और इन्हीं के नामों के अनुसार इन के गांवों और छावणियों के नाम भी पड़े और ये ही  
१७ बारह अपने अपने कुल के प्रधान हुए । इश्माएल की सारी अवस्था एक सौ सैंतीस बरस की हुई तब उस का प्राण छूट गया और वह अपने लांगों में जा मिला ।  
१८ और उस के बंरा हवीला से शर लों जो मिस्र के सन्मुख अश्शूर के मार्ग में हैं बम गये और उन का भाग उन के सब भाईवन्धुओं के सन्मुख पड़ा ॥

(इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन)

- १९ इब्राहीम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है  
२० इब्राहीम ने इसहाक को जन्माया । और इसहाक ने चालीस बरस का होकर रिबका को जो पद्मनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लावान की  
२१ बहिन थी ब्याह लिया । इसहाक की स्त्री जो बांभ थी सो उस ने उस के निर्मित्त यहोवा से विनती की और यहांवा ने उस की विनती सुनी सो उस की स्त्री रिबका गर्भवती  
२२ हुई । और लड़के उस के गर्भ में आपस में लिपटके एक दूसरे को मारने लगे तब उस ने कहा मेरी जां ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों जीती रहूंगी और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई ।  
२३ तब यहोवा ने उस से कहा  
तेरे गर्भ में दो जातियां हैं  
और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे  
और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बंदा छोट के अधीन होगा ।  
२४ जब उस के जनने का समय आया तब क्या प्रगट  
२५ हुआ कि उस के गर्भ में जुड़ौरे बालक हैं । और पहिला जो निकला सो लाल निकला और उस का सारा शरीर कम्बल के समान रौआर था सो उस का नाम एसाव  
२६ रखवा गया । पीछे उस का भाई अपने हाथ से एसाव  
(१) मूल में अनुसार । (२) अर्थात् अराम का मैदान । (३) अर्थात् रौआर ।

की एड़ी पकड़े हुए निकला और उस का नाम याकूब रखवा गया और जब रिबका उन को जनी तब इसहाक साठ बरस का हुआ था । फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो बनवासी होकर चतुर शिकार खेलनेहारा हो गया पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंजुओं में रहा करता था । और इसहाक जो एसाव के अहेर का मांस खाया करता था इस लिये वह उस से प्रीति रखता था पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी ॥

याकूब भोजन के लिये कुछ सिम्हा रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया । तब एसाव ने याकूब से कहा वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला क्योंकि मैं थका हूं । इसी कारण उस का नाम एदोम भी पड़ा । याकूब ने कहा अपना पहिलौटे का हक आज मेरे हाथ बेच दे । एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूं सो पहिलौटे के हक से मेरा क्या लाभ होगा । याकूब ने कहा मुझ से अभी किरिया खा सो उस ने उस से किरिया खाई और अपना पहिलौटे का हक याकूब के हाथ बेच डाला । इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और सिम्हाई हुई मसूर की दाल दी और उस ने खाया पिया तब उठकर चला गया यो एसाव ने अपना पहिलौटे का हक तुच्छ जाना ॥

(इसहाक का वृत्तान्त)

२६. और उस देश में अकाल पड़ा वह उस पहिले अकाल से अलग था जो

इब्राहीम के दिनों में पड़ा था । सो इसहाक गरार को पालिशियों के राजा अभीमेलेक के पास गया । वहां यहोवा ने उस को दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा जो देश मैं तुके बताऊँ उसी में रह । इसी देश में परदेशी होकर रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशिष दूंगा और ये सब देश मैं तुझ को और तेरे वंश को दूंगा और जो किरिया मैं ने तेरे पिता इब्राहीम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा । और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बहुत करूंगा और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथिवी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी । क्योंकि इब्राहीम ने मेरी मानी और जो मैं ने उसे सौंपा था उस को और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था को पाला । सो इसहाक गरार में रह गया । जब उस स्थान के लोगों ने उस की स्त्री के विषय में पूछा तब उस ने यह सोचकर कि यदि मैं उस को अपनी स्त्री कहूं तो यहां के लोग रिबका के कारण जो सुन्दरी है मुझ को मार डालेंगे उत्तर दिया वह तो

(१) अर्थात् अक्का मारनेहारा । (२) अर्थात् लाल ।

८ मेरी बहिन है । जब उस को वहां रहते बहुत दिन बीत गये तब एक दिन पलिशतियों के राजा अबीमेलोक ने खिड़की में से भाँकके क्या देखा कि इसहाक अपनी स्त्री ९ रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है । तब अबीमेलोक ने इसहाक को बुलवाकर कहा वह तो निश्चय तेरी स्त्री है फिर तू ने क्योंकर उस को अपनी बहिन कहा, इसहाक ने उत्तर दिया मैं ने सोचा था कि ऐसा न हो कि उस के १० कारण मेरी मृत्यु हो । अबीमेलोक ने कहा तू ने हम से यह क्या किया था ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी स्त्री के साथ सहज से कुकर्म्म कर सकता और तू हम को पाप ११ में फँसाता । और अबीमेलोक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को वा उस की स्त्री १२ को छूएगा सो निश्चय मार डाला जाएगा । फिर इसहाक ने उस देश में जाता बोया और उसी बरस में सौ गुणा फल पाया और यहोवा ने उस को आशिष १३ दी । और वह बढ़ा और दिन दिन उस की बढ़ती होती चली गई यहां लों कि वह अति महान् हो गया । जब १४ उस के मेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुईं तब पलिशती उस से डाह करने लगे । सो जितने कुआँ को उस के पिता इब्राहीम के दासों ने इब्राहीम के १५ जीते जी खोदा था उन को पलिशतियों ने मिट्टी से भर दिया । तब अबीमेलोक ने इसहाक से कहा हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हम से बहुत सामर्थी हो गया है । १७ सो इसहाक वहां से चला गया और गरार के नाले में अपना तम्बू खड़ा करके वहां रहने लगा । तब जो कुएँ उस के पिता इब्राहीम के दिनों में खोदे गये थे और इब्राहीम के मरने के पीछे पलिशतियों से भर दिये गये थे उन को इसहाक ने फिर से खुदवाया और उन के वे ही १९ नाम रक्खे जो उस के पिता ने रक्खे थे । फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते वहते जल का एक २० साँता मिला । तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से भगड़ा करके कहा कि यह जल हमारा है सो उस ने उस कुएँ का नाम ऐसेक रक्खा इस लिये कि वे उस २१ से भगड़े थे । फिर उन्होंने ने दूसरा कुआँ खोदा और उन्होंने ने उस के लिये भी भगड़ा किया सो उस ने उस का नाम २२ सित्रा रक्खा । तब उस ने वहां से कुच करके एक और कुआँ खुदवाया और उस के लिये उन्होंने ने भगड़ा न किया सो उस ने उस का नाम यह कहकर रहोवोत रक्खा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिये बहुत स्थान दिया २३ है और हम इस देश में फूलें फलेंगे । वहां से वह बेशोबा २४ को गया । और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन

(१) अर्थात् भगड़ा । (२) अर्थात् विरोध । (३) अर्थात् चौड़ा स्थान ।

देकर कहा मैं तेरे पिता इब्राहीम का परमेश्वर हूँ मस डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और अपने दास इब्राहीम के कारण तुझे आशिष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा । तब उस ने २५ वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तम्बू वहीं खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआँ खोदा । तब अबीमेलोक अपने मित्र अहुजत २६ और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उस के पास गया । इसहाक ने उन से कहा तुम ने मुझ से २७ वैर करके अपने बीच से निकाल दिया था सो अब मेरे पास क्यों आये हो । उन्होंने ने कहा हम ने तो प्रत्यक्ष देखा २८ है कि यहोवा तेरे संग रहता है सो हम ने सोचा कि तू जो यहांवा की ओर से धन्य है सो हमारे और तेरे बीच में किरिया खाई जाए और हम तुझ से इस विषय की वाचा बन्धाएँ, कि जैसे तुम ने मुझे नहीं छुआ बरन मेरे २९ साथ निरी भलाई की है और मुझ को कुशल क्षेम मे विदा किया इस के अनुसार मैं भी तुम से कुछ बुराई न करूंगा । तब उस ने उन की जेबनार की और उन्होंने ने ३० ग्वाया पिया । विहान को उन मभों ने तड़के उठकर आपस में किरिया खाई तब इसहाक ने उन को विदा ३१ किया और वे कुशल क्षेम से उस के पास से चले गये । उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उम खोदे ३२ हुये कुएँ का उत्तान्त मुनाके कहा कि हम का जल का एक साँता मिला है । तब उस ने उस का नाम शिबा ३३ रक्खा इसी कारण उस नगर का नाम आज लों बेशोबा पड़ा है ॥

जब एसाव चालीस बरस का हुआ तब उस ने हिता ३४ बेरी की बेटी यहूदीत और हिता एलोन की बेटी याशमत को ब्याह लिया । और इन स्त्रियों के कारण इसहाक ३५ और रिबका के मन को खेद हुआ ॥

(याक़ब और एसाव को आशीर्वाद मिलने का वर्णन)

**२७ जब** इसहाक बूढ़ा हो गया और उस की आँखें ऐसी धुन्धली पड़ गईं कि उस को सूझता न था तब उस ने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा हे मेरे पुत्र उस ने कहा क्या आज्ञा । उस २ ने कहा सुन मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा । सो अब तू अपना ३ तर्कश और धनुष आदि हाथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिये अहेर कर ले आ । तब मेरी रूचि के ४ अनुसार स्वादिष्ठ भोजन बनाकर मेरे पास ले आगा कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी से आशीर्वाद दू । तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया । जब इस- ५

(४) अर्थात् किरिया । (५) अर्थात् किरिया का कुआँ ।

हाक एसाव से यह बात कह रहा था तब रिबका  
 ६ सुन रही थी। सो उस ने अपने पुत्र याकूब से कहा  
 सुन मैं ने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह  
 ७ कहते सुना कि, तू मेरे लिये अहेर करके उस का  
 स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के  
 ८ आगे मरने से पहिले आशीर्वाद दूँ। सो अब हे मेरे  
 ९ पुत्र मेरी सुन और मेरी यह आज्ञा मान कि, बकरियों के  
 पास जाकर बकरियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे ले आ  
 और मैं तेरे पिता के लिये उस की रुचि के अनुसार उन  
 १० के मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊँगी। तब तू उस को  
 अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने  
 ११ से पहिले तुझे आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता  
 रिबका से कहा सुन मेरा भाई एसाव तो रौंझार  
 १२ पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। क्या जानिये मेरा  
 पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उस के लेखे में उग  
 १३ ठहरूँगा और आशिष के बदले साप ही कमाऊँगा।  
 उस की माता ने उस से कहा हे मेरे पुत्र साप तुझे पर  
 नहीं मुझी पर पड़े तू केवल मेरी सुन और जाकर  
 १४ मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उन को अपनी  
 माता के पास ले आया और माता ने उस के पिता की  
 १५ रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब  
 रिबका ने अपने पहिलौठे पुत्र एसाव के सुन्दर वस्त्र  
 १६ का पहिना दिये, और बकरियों के बच्चों की खालों को  
 उस के हाथों में और उस के चिकने गले में लपेट दिया।  
 १७ और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी  
 १८ भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दी। सो वह अपने  
 पिता के पास गया और कहा हे मेरे पिता उस ने कहा  
 १९ क्या बात है हे मेरे पुत्र तू कौन है। याकूब ने अपने  
 पिता से कहा मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ मैं ने तेरी  
 आज्ञा के अनुसार किया है सो उठ और बैठकर मेरे अहेर  
 के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे।  
 २० इसहाक ने अपने पुत्र से कहा हे मेरे पुत्र क्या कारण है  
 कि वह तुझे ऐसे भट्ट मिल गया उस ने उत्तर दिया यह  
 कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उस को मेरे साम्हने कर  
 २१ दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा हे मेरे पुत्र निकट  
 आ मैं तुझे टटोलकर जानूँ कि तू सचमुच मेरा पुत्र  
 २ एसाव है वा नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के  
 निकट गया और उस ने उस को टटोलकर कहा बोल तो  
 याकूब का सा है पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते  
 ३ हैं। और उस ने उस को नहीं चीन्हा क्योंकि उस  
 (१) मूल में तेरा साप। (२) मूल में मुझे देख।

के हाथ उस के भाई एसाव के से रौंझार थे सो उस ने  
 उस को आशीर्वाद दिया। और उस ने पूछा क्या तू २४  
 सचमुच मेरा पुत्र एसाव है उस ने कहा हाँ मैं हूँ। तब २५  
 उस ने कहा भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं तुझे  
 अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से  
 आशीर्वाद दूँ तब वह उस को उस के निकट ले आया  
 और उस ने खाया और वह उस के पास दाखमधु भी  
 लाया और उस ने पिया। तब उस के पिता इसहाक ने २६  
 उस से कहा हे मेरे पुत्र निकट आकर मुझे चूम। उस ने २७  
 निकट जाकर उस को चूमा और उस ने उस के बच्चों का  
 सुगन्ध पाकर उस को वह आशीर्वाद दिया कि

देख मेरे पुत्र का सुगन्ध जो

ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशिष  
 दी है।

सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस

२८

और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज

और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे

राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों

२९

और देश देश के लोग तुझे दण्डवत् करें

तू अपने भाइयों का स्वामी हो

और तेरी माता के पुत्र तुझे दण्डवत् करें

जो तुझे साप दें सो आप ही सापित हों

और जो तुझे अशीर्वाद दें सो आशिष पाएं ॥

यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका और ३०  
 याकूब अपने पिता इसहाक के साम्हने से निकलता ही  
 था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुँचा। तब वह भी ३१  
 स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया  
 और उस से कहा हे मेरे पिता उठकर अपने पुत्र  
 के अहेर का मांस खा कि तू मुझे जी से आशीर्वाद  
 दे। उस के पिता इसहाक ने उस से पूछा तू कौन है उस ३२  
 ने कहा मैं तो तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने ३३  
 अत्यन्त धर धर कांपते हुए कहा फिर वह कौन था जो  
 अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैं ने तेरे आने  
 से पहिले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उस को  
 आशीर्वाद दिया बरन उस को आशिष लगी भी रहेगी।  
 अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यन्त ३४  
 ऊँच और दुःखभरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से  
 कहा हे मेरे पिता मुझे भी आशीर्वाद दे। उस ने ३५  
 कहा तेरा भाई धूर्त्ता से आया और तेरे विषय के  
 आशीर्वाद को लेके चला गया। उस ने कहा क्या उस का ३६  
 नाम याकूब यथार्थ नहीं रखवा गया उस ने मुझे दो  
 बार अड़गा मारा मेरा पहिलौठे का हक तो उस ने ले

- ही लिया था और अब देख उस ने मेरे विषय का आशीर्वाद भी ले लिया है फिर उस ने कहा क्या तू ने मेरे लिये भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रक्खा है ।
- ३७ इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा सुन मैं ने उस को तेरा स्वामी ठहराया और उस के सब भाइयों का उस के अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख-मधु देकर उस को पुष्ट किया है सो अब हे मेरे पुत्र मैं
- ३८ तेरे लिये क्या करूँ । एसाव ने अपने पिता से कहा हे मेरे पिता क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है, हे मेरे पिता मुझ को भी आशीर्वाद दे यां कहकर एसाव फूट
- ३९ फूटके रोया । उस के पिता इसहाक ने उस से कहा सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो और ऊपर से आकाश की ओर उस पर पड़े ॥
- ४० और तू अपनी तलवार के बल से जीए और अपने भाई के अधीन तो होए पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उस के जूए को अपने कन्धे पर से तोड़ फेंक ।
- ४१ एसाव ने जो याकूब से अपने पिता के दिये हुए आशीर्वाद के कारण बैर रक्खा सो उस ने सांचा कि मेरे पिता के अन्तकाल का दिन निकट है तब मैं
- ४२ अपने भाई याकूब को घात करूँगा । जब रिबका को अपने पहिलौठे पुत्र एसाव का ये बातें बताई गईं तब उस ने आप ने लहुरे पुत्र याकूब का बुला कर कहा सुन तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिये अपने
- ४३ मन को धीरज दे रहा है । सो अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लावान के पास भाग जा ।
- ४४ और थोड़े दिन लों अर्थात् जब लों तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब लों उसी के पास रहना । फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तू ने उस से किया है उस को वह भूल जाए तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूँगी ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे नुम दोनों से रहित होना पड़े ॥
- ४६ फिर रिबका ने इसहाक से कहा हिन्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ सो यदि ऐसी हिन्ती लड़कियों में से जैसी ये देशी लड़कियां हैं याकूब भी एक को कहीं ब्याह ले तो मेरे जीवन में क्या
- २८ लाभ होगा । तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी
- २ कनानी लड़की को न ब्याह लेना । पद्मनराम मैं अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लावान
- (१) मूल में अपनी गर्दन । (२) मूल में शक्ति ।

की एक बेटी को ब्याह लेना । और सर्वशक्तिमान् ईश्वर तुझे आशिष दे और फुला फलाकर बढ़ाए और तू राज्य राज्य की मण्डली का मूल हो । और वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहीम की सी आशिष दे कि तू यह देश जिस में तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहीम को दिया था उस का अधिकारी हो जाए । और इसहाक ने याकूब को बिदा किया और वह पद्मनराम को अरामी बतूएल के उस पुत्र लावान के पास चला जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था । जब इसहाक ने याकूब का आशीर्वाद देकर पद्मनराम भेज दिया कि वह वहीं से ली ब्याह लाए और उस को अर्शावां दे देने के समय यह आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की को ब्याह न लेना, और याकूब माता पिता की मानकर पद्मनराम को चल दिया, तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, इब्राहीम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की बेटी महलत का जो नबायोत की बहिन थी ब्याहकर अपनी स्त्रियों में मिला लिया ॥

(याकूब के परदेश जाने का वर्णन)

सो याकूब वंशीबा से निकल कर हारान की ओर चला । और उसने किसी स्थान में पहुंच कर रात वहां बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था सो उस ने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना उसीसा बनाकर रक्खा और उसी स्थान में सो गया । तब उस ने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथिवी पर खड़ी है और उस का सिरा स्वर्ग लों पहुंचा और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उस के ऊपर खड़ा हो कर कहता है कि मैं यहांवा तेरे दादा इब्राहीम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझ को और तेरे वंश को दूँगा । और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पूरब पच्छिम उत्तर दक्खिन चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथिवी के सारे कुल आशिष पाएंगे । और सुन मैं तेरे संग रहूँगा और जहां कहीं तू जाय वहां तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा मैं अपने कहे हुए को जब लों पूरा न कर लूँ तब लों तुझ को न छोड़ूँगा । तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इम स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था । और भय खाकर उस ने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर

के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह  
 १८ स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा  
 और अपने उसीसे का पत्थर लेकर उस का खंभा खड़ा  
 १९ किया और उस के सिरे पर तेल डाल दिया। और  
 उस ने उस स्थान का नाम बेतेल<sup>१</sup> रक्खा, पर उस नगर  
 २० का नाम पहिले लूज था। और याकूब ने यह मन्मत  
 मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में  
 मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिये रांटी और पहि-  
 २१ नने के लिये कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर  
 में कुशल जेम से लौट आऊं तो यहीवा मेरा परमेश्वर  
 २२ ठहरेगा। और यह पत्थर जिस का मैं ने खंभा खड़ा  
 किया है सो परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ  
 तू मुझे दे उस का दशमांश मैं अवश्य ही तुम्हें दिया  
 करूंगा ॥

(याकूब के बिबाहीं और उस के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन)

२ **२९. फिर** याकूब ने अपना मार्ग लिया और  
 पूर्वियों के देश में आया। और  
 उस ने दृष्ट करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआँ  
 है और उस के पास भेड़ बकरियों के तीन झुण्ड बैठे  
 हुए हैं क्योंकि जो पत्थर उस कूप के मुँह पर धरा रहता  
 था जिस में से झुण्डों का जल पिलाया जाता था वह  
 ३ भारी था। जब जब सब झुण्ड वहाँ इकट्ठे होते तब  
 तब चरवाहे उस पत्थर का कूप के मुँह पर से लुढ़काकर  
 भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर का कूप  
 ४ के मुँह पर ज्यों का त्यों कर देते थे। सो याकूब ने  
 चरवाहों से पूछा हे मेरे भाइयों तुम कहाँ के हो उन्हों ने  
 ५ कहा हम हारान के हैं। तब उस ने उन से पूछा क्या  
 तुम नाहोर के पाते लावान को जानते हो उन्हों ने  
 ६ कहा हाँ हम उसे जानते हैं। फिर उस ने उन से पूछा  
 क्या वह कुशल से है उन्हों ने कहा हाँ कुशल में तो  
 है और वह देख उस की बेटी राहेल भेड़ बकरियों का  
 ७ लिये हुए चली आती है। उस ने कहा देखा अभी तो  
 दिन बहुत है पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं सो  
 भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ।  
 ८ उन्हों ने कहा हम अभी ऐसा नहीं कर सकते  
 जब सब झुण्ड इकट्ठे होते और पत्थर कूप के मुँह  
 पर से लुढ़काया जाता है तब हम भेड़ बकरियों  
 ९ को पानी पिलाते हैं। उन की यह बातचीत हो  
 ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती  
 थी सो अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिये हुए आ  
 १० गई। अपने मामा लावान की बेटी राहेल को और उस

(१) अर्थात् ईश्वर का भवन।

की भेड़ बकरियों को भी देखकर याकूब ने निकट जा  
 कूप के मुँह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा  
 लावान की भेड़ बकरियों को पिला दिया। तब याकूब ११  
 ने राहेल को चूमा और ऊँचे स्वर से रोया। और याकूब १२  
 ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ अर्थात्  
 रिबका का पुत्र हूँ तब उस ने दौड़के अपने पिता से कह  
 दिया। अपने भाजे याकूब का समाचार पाते ही लावान १३  
 उस से भेंट करने को दौड़ा और उस को गले लगाकर  
 चूमा फिर अपने घर ले आया और याकूब ने लावान  
 से अपना सब वृत्तान्त वर्णन किया। तब लावान ने उस १४  
 से कहा तू तो सचमुच मेरा हाड़ मांस है। और याकूब  
 उस के साथ महीना भर रहा। तब लावान ने याकूब १५  
 से कहा भाईबन्धु होने के कारण तो तुझ से सेंटमेंत सेवा  
 कराना मुझे उचित नहीं है मेा कह दे मैं तुम्हें सेवा के  
 बदले क्या दूँ। लावान के दो बेटियाँ थीं जिन में से १६  
 बड़ी का नाम लेआ और छोटी का राहेल है। लेआ के १७  
 तो चुन्धली आँखें थीं पर राहेल रूपवती और सुन्दर  
 थी। सो याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा १८  
 मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिये सात बरस तेरी सेवा  
 करूंगा। लावान ने कहा उसे पराये पुरुष को देने से १९  
 तुझ को देना उचम हांग सो तू मेरे पास रह। सो २०  
 याकूब ने राहेल के लिये सात बरस सेवा की और वे उस  
 को राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर  
 जान पड़े। तब याकूब ने लावान से कहा मेरी स्त्री मुझे २१  
 दे और मैं उस के पास जाऊंगा क्योंकि मेरा समय पूरा  
 हो गया है। सो लावान ने उस स्थान के सब मनुष्यों २२  
 को बुलाकर इकट्ठा किया और उन की जेवनार की।  
 सांभ के समय वह अपनी बेटी लेआ को याकूब के पास २३  
 ले गया और उस ने उस से प्रसंग किया। और लावान २४  
 ने अपनी बेटी लेआ को उस की लौएडी होने के लिये  
 अपनी लौएडी जिल्या दी। भार को मालूम हुआ कि २५  
 यह तो लेआ है सो उस ने लावान से कहा यह तू ने  
 मुझ से क्या किया है मैं ने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा  
 की सो क्या राहेल के लिये नहीं की फिर तू ने मुझ  
 से क्यों ऐसा लूल किया है। लावान ने कहा हमारे यहाँ २६  
 ऐसी रीति नहीं कि जेठी से पहिले दूसरी का बिवाह कर  
 दें। इस का अन्वारा तो पूरा कर फिर दूसरी भी तुम्हें २७  
 इस सेवा के लिये मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और  
 सात बरस लो करेगा। सो याकूब ने ऐसा करके लेआ २८  
 के अठवारे को पूरा किया तब लावान ने उसे अपनी बेटी  
 राहेल को भी दिया कि वह उस की स्त्री हो। और २९  
 लावान ने अपनी बेटी राहेल की लौएडी होने के लिये

३० अपनी लौएडी बिल्हा को दिया । तब याकूब राहेल के पास भी गया और उस की प्रीति लेआ से अधिक उसी पर हुई और उस ने लावान के साथ रहकर और भी सात बरस उस की सेवा की ॥

३१ जब यहोवा ने देखा कि लेआ अप्रिय हुई तब उस ने उस की कोख खोली पर राहेल बांध रही । सो लेआ गर्भवती हुई और एक पुत्र जनी और यह कहकर उस का नाम रूबेन रक्खा कि यहोवा ने जो मेरे दुःख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा पति मुझ से प्रीति रखेगा ।

३३ फिर वह गर्भवती होकर एक पुत्र और जनी और बोली यह सुनके कि मैं अप्रिय हूँ यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया इस लिये उस ने उस का नाम शिमोन रक्खा ।

३४ फिर वह गर्भवती होकर एक पुत्र और जनी और कहा अब की बार तो मेरा पति मुझ से मिल जाएगा क्योंकि मैं उस के तीन पुत्र जनी हूँ इस लिये उस

३५ का नाम लेवी रक्खा गया । और फिर वह गर्भवती होकर एक और पुत्र जनी और कहा अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूँगी इस लिये उस ने उस का नाम यहूदा रक्खा तब उस का जनना बन्द हो गया ॥

**३०. जब राहेल ने देखा कि याकूब के मुझ से सन्तान नहीं होते तब वह अपनी बहिन**

से डाह करने लगी और याकूब से कहा मुझे लड़के दे नहीं तो मर जाऊँगी । तब याकूब ने राहेल से क्रोधित

होकर कहा क्या मैं परमेश्वर हूँ तेरी कोख तो उसी ने बन्द कर रक्खी है । राहेल ने कहा अच्छा मेरी लौएडी

बिल्हा हाजिर है उसी के पास जा वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उस के द्वारा मेरा भी घर बसेगा । सो उस

ने उसे अपनी लौएडी बिल्हा को दिया कि वह उस की स्त्री हो और याकूब उस के पास गया । और बिल्हा गर्भ-

वती होकर याकूब का जन्माया एक पुत्र जनी । और राहेल ने कहा परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी

सुन कर मुझे एक पुत्र दिया इस लिये उस ने उस का नाम दान रक्खा । और राहेल की लौएडी बिल्हा फिर

गर्भवती होकर याकूब का जन्माया एक पुत्र और जनी । तब राहेल ने कहा मैं ने अपनी बहिन के साथ बड़े बल

से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई सो उर ने उस का नाम नताली रक्खा । जब लेआ ने देखा

कि मैं जनने से रहित हो गई हूँ तब उस ने अपनी लौएडी जिल्पा को लेकर याकूब की स्त्री होने के लिये दे

(१) अर्थात् देखो बेटा । (२) अर्थात् सुन लेना । (३) अर्थात् जूटना । (४) अर्थात् जिस का धन्यवाद हुआ हो । (५) अर्थात् न्यायी । (६) अर्थात् मेरा मल्लयुद्ध ।

दिया । और लेआ की लौएडी जिल्पा भी याकूब का जन्माया एक पुत्र जनी । तब लेआ ने कहा आहो भाग्य

सो उस ने उस का नाम गाद रक्खा । फिर लेआ की लौएडी जिल्पा याकूब का जन्माया एक पुत्र और जनी ।

तब लेआ ने कहा मैं धन्य हूँ निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेंगी सो उस ने उस का नाम आशेर रक्खा । गोह की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूदाफल

मिले और वह उन को अपनी माता लेआ के पास ले गया तब राहेल ने लेआ से कहा अपने पुत्र के दूदाफलों में से कुछ मुझे दे । उस ने उस से कहा तू ने जो मेरे पति को ले लिया है सो क्या छोटी बात है अब क्या तू मेरे पुत्र के दूदाफल भी लेने चाहती है राहेल ने

कहा अच्छा तेरे पुत्र के दूदाफलों के पलटे में वह आज रात को तेरे संग सोएगा । सो सोभ को जब याकूब मैदान से आता था तब लेआ उस से भेंट करने को निकली और कहा तुझे मेरे ही पास आना होगा क्योंकि मैं ने अपने पुत्र के दूदाफल देकर तुझे सचमुच मोल लिया है तब वह उस रात को उसी के संग सोया । तब परमेश्वर ने लेआ की सुनी सो वह गर्भवती होकर याकूब का जन्माया पांचवां पुत्र जनी । तब लेआ ने कहा मैं ने जो अपने पति को अपनी लौएडी दी इस लिये परमेश्वर ने मुझे मेरी मजूरी दी है, सो उस ने उस का नाम इस्ताकार रक्खा । और लेआ फिर गर्भवती होकर याकूब का जन्माया छठवां पुत्र जनी । तब लेआ ने कहा परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा क्योंकि मैं उस के जन्माये छः पुत्र जनी हूँ, सो उस ने उस का नाम जबलून रक्खा । पीछे उस के एक बेटा भी हुई और उस ने उस का नाम दीना रक्खा । और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उस की सुनकर उस की कोख खोली । सो वह गर्भवती होकर एक पुत्र जनी और कहा परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है । सो उस ने यह कहकर उस का नाम यूसुफ रक्खा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा ॥

जब राहेल यूसुफ को जनी तब याकूब ने लावान से कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

कहा मुझे बिदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ । मेरी स्त्रियाँ और मेरे लड़केवाले जिन के लिए मैं ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है । लावान

ने उस से कहा यदि तेरी दृष्टि में मैं ने अनुग्रह पाया है तो रह जा क्योंकि मैं ने लक्षण से जान लिया है कि  
 २८ यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशिष दी है । फिर उस ने कहा तू ठीक बता कि मैं तुम्ह को क्या दूँ और मैं उसे  
 २९ दूँगा । उस ने उस से कहा तू जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे ।  
 ३० मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गये हैं और यहोवा ने मेरे आने पर तुम्हें तो आशिष दी है  
 ३१ पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊँगा । उस ने फिर कहा मैं तुम्हें क्या दूँ याकूब ने कहा तू मुझे कुछ न दे यदि तू मेरे लिये एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़  
 ३२ बकरियों को चराऊँगा और उन की रक्षा करूँगा । मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूँगा और जो भेड़ वा बकरी चित्तीवाली वा चित्कबरी हो और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चित्कबरी वा चित्तीवाली हो उन्हें मैं अलग कर रक्खूँगा और मेरी मजूरी वे ही  
 ३३ ठहरेंगी । और जब आगे के मेरी मजूरी की चर्चा तेरे साम्हने चले तब मेरे धर्म की यही साक्षी होगी अर्थात् बकरियों में से जो कोई न चित्तीवाली न चित्कबरी हो और भेड़ों में से जो कोई काली न हो सो यदि मेरे पास  
 ३४ निकले तो चोरी की ठहरेंगी । तब लावान ने कहा तेरे कहने के अनुसार हो । सो उस ने उसी दिन सब धारीवाले और चित्कबरे बकरो और सब चित्तीवाली और चित्कबरी बकरियों को अर्थात् जितनियों में कुछ उजलापन था उन को और सब काली भेड़ों को भी अलग  
 ३६ करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया । और उस ने अपने और याकूब के बीच में तीन दिन के मार्ग का अन्तर ठहराया सो याकूब लावान की भेड़ बकरियों को चराने  
 ३७ लगा । और याकूब ने चिनार और बादाम और अमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उन के छिलके कहीं  
 ३८ कहीं छील के उन्हें गंडेरीदार बना दिया, और छील हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के साम्हने उन के पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया और जब वे पीने के लिये  
 ३९ आईं तब गाभिन हो गईं । और छड़ियों के साम्हने गाभिन होकर भेड़ बकरियाँ धारीवाले चित्तीवाले और  
 ४० चित्कबरे बच्चे जनीं । तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लावान की भेड़ बकरियों के मुँह को चित्तीवाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने भुरखों को उन से अलग रक्खा और  
 ४१ लावान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया । और जब जब बलवन्त भेड़ बकरियाँ गाभिन होती थीं तब तो याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उन के साम्हने रख

देता था जिस से वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाएं । पर जब निर्बल भेड़ बकरियाँ गाभिन होती थीं तब वह उन्हें उन के आगे न रखता था इस से निर्बल निर्बल लावान की रहीं और बलवन्त बलवन्त याकूब की हो गईं । सो वह पुरुष अत्यन्त धनाढ्य हो गया और उस के बहुत सी भेड़ बकरियाँ लौंगियाँ दास ऊंट और गदहे हुए ।

(याकूब के घर जाने का वर्णन)

### ३१. फिर लावान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आईं कि

याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता का जो धन था उसी से उस ने अपना यह सारा विभव कर लिया है । और याकूब लावान की चेष्टा से भी ताड़ गया कि वह आगे की नाईं अब मुझे नहीं देखता । तब यहोवा ने याकूब से कहा अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा । तब याकूब ने राहेल और लेआ के मैदान पर अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा तुम्हारे पिता की चेष्टा से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे आगे की नाईं अब नहीं देखता पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग रहा है । और तुम भी जानती हो कि मैं ने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है । और तुम्हारे पिता ने मुझ से लड़ करके मेरी मजूरी को दस बार बदल दिया परन्तु परमेश्वर ने उस को मेरी हानि करने नहीं दिया । जब उस ने कहा कि चित्तीवाले बच्चे तेरी मजूरी ठहरेंगे तब सब भेड़ बकरियाँ चित्तीवाले ही जनने लगीं और जब उस ने कहा कि धारीवाले बच्चे तरो मजूरी ठहरेंगे तब सब भेड़ बकरियाँ धारीवाले जनने लगीं । इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझ को दे दिये । भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैं ने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारीवाले चित्तीवाले और धब्बेवाले हैं । और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझ से कहा हे याकूब मैं ने कहा क्या आज्ञा । उस ने कहा आखें उठाकर उन सब बकरो को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारीवाले चित्तीवाले और धब्बेवाले हैं क्योंकि जो कुछ लावान तुझ से करता है सो मैं ने देखा है । मैं उस बेतल का ईश्वर हूँ जहां तू ने एक खंभे पर तेल डाल दिया और मेरी मज्जत मानी थी अब चल इस देश से निकलकर अननी जन्मभूमि को लौट जा । तब राहेल और लेआ ने उस से कहा क्या हमारे पिता के घर में अब हमारा कुछ

(१) मूल में मुझे देख ।



१५ भाग वा अंश रहा है । क्या हम उस के लेखे में उपरी नहीं ठहरीं देख उस ने हम को तो बेच डाला और हमारे  
 १६ रूपे को खा बैठा है । सो परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है सो हमारा और हमारे लड़के-  
 १७ बालों का है अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझ से कहा है सो कर । तब याकूब ने अपने लड़केबालों और स्त्रियों का  
 १८ ऊंटों पर चढ़ाया, और जितने पशुओं का वह पहनराम में इकट्ठा करके भनाढ्य हो गया था सब को कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने की मनसा से साथ ले गया ।  
 १९ लावान तो अपनी भेड़ बकरियों का रोआं कतराने के लिये चला गया था । और राहेल अपने पिता के गृहदेवताओं  
 २० को चुरा ले गई । सो याकूब लावान अरामी के पास से चोरी से चला गया अर्थात् उस को न बताया कि मैं  
 २१ भागा जाता हूं । वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरके अपना मंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया ।  
 २२ तीसरे दिन लावान को समाचार मिला कि याकूब  
 २३ भाग गया है । सो उस ने अपने भाइयों को साथ लेकर उस का पीछा सात दिन तक किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उस को जा लिया । तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लावान के पास आकर कहा सावधान रह तू  
 २४ याकूब से न तो भला कहना और न बुरा । और लावान याकूब के पास पहुंच गया याकूब तो अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी देश में खड़ा किये पड़ा था और लावान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी  
 २५ देश में खड़ा किया । तब लावान याकूब से कहने लगा तू ने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों का ऐसा ले आया जैसा कोई युद्ध में  
 २६ जीतकर बन्धुई करके ले जाए । तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझ से बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया नहीं तो मैं तुझे आनन्द के साथ मृदंग और  
 २७ वीणा बजाते और गीत गवाते बिदा करता । तू ने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया तू ने मूर्खता की है । तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझ से  
 २८ बीती हुई रात में कहा सावधान रह याकूब से न तो भला कहना और न बुरा । भला तू अपने पिता के घर का  
 २९ बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है । याकूब ने  
 ३० लावान को उत्तर दिया मैं यह सोचकर डर गया था कि क्या जानिये लावान अपनी बेटियों का मुझ से छीन ले । जिस कित्ती के पास तू अपने देवताओं को पाए सो

जीता न बचेगा मेरे पास तरा जो कुछ निकले सो भाई-  
 बन्धुओं के साम्हने पहिचानकर ले ले । याकूब तो न जानता था कि राहेल गृहदेवताओं को चुरा ले आई है । यह सुनकर लावान याकूब और लेआ और दोनों दासियों  
 के तंबूओं में गया और कुछ न मिला तब लेआ के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया । राहेल तो गृह-  
 देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी सो लावान ने उस के सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया । राहेल ने अपने पिता से कहा हे मेरे प्रभु इस  
 से अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे साम्हने नहीं उठी क्योंकि मैं स्त्रीधर्म से हूं । सो उस के दूढ़ ढांढ़ करने पर भी गृह-  
 देवता उसको न मिले । तब याकूब क्रोधित होकर लावान से भगाड़ने लगा और कहा मेरा क्या अपराध है मेरा  
 क्या पाप है कि तू ने इतना तेहा करके मेरा पीछा किया है । तू ने जो मेरी सारी सामग्री का टटोला सो तुझ को  
 अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला । कुछ मिला हो तो उस को यहां अपने मेरे भाइयों के साम्हने रख दे और वे हम दोनों के बीच विचार करें । इन बीस बरसों से मैं  
 तेरे पास रहता हूं इन में न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मेढ़ों का मांस मैं ने कभी खाया । जो  
 वनैले जन्तुओं से फाड़ा जाता उस को मैं तेरे पास न लाता था उस की हानि मैं ही उठाता था चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को तू मेरे ही हाथ से उस को भर  
 लेता था । मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो धाम और रात को पाला मुझे मुखाये डालता था और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी । बीस बरस तक मैं तेरे  
 घर में रहा चौदह बरस तो मैं ने तेरी दांतों बेटियों के लिये और छः बरस तेरी भेड़ बकरियों के लिये सेवा की और तू ने मेरी मजूरी को दस बार बदल डाला । मेरे पिता  
 का परमेश्वर अर्थात् इब्राहीम का परमेश्वर जिस का भय इसहाक भी मानता है सो यदि मेरी ओर न हांता तो निश्चय तू अब मुझे लूछे हाथ जाने देता । मेरे तुम्ह  
 और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे दपटा । लावान ने याकूब से कहा ये  
 बेटियां तो मेरी ही हैं और ये पुत्र भी मेरे ही हैं और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं और जो कुछ तुझे देव  
 पड़ता है सो सब मेरा ही है और अब मैं अपनी इन बेटियों वा इन के सन्तान से क्या कर सकता हूं । अब  
 आ मैं और तू दोनों आपस में बाचा बांधें और वह मेरे और तेरे बीच साची ठहरी रहे । तब याकूब ने एक पत्थर  
 लेकर उस का खंभा खड़ा किया । तब याकूब ने अपने भाईबन्धुओं से कहा पत्थर बटोरो यह सुनकर उन्होंने ने

पत्थर बटोर के एक ढेर लगाया और वहीं ढेर के पास  
 ४७ उन्हीं ने भोजन किया । उस ढेर का नाम लाबान  
 ने तो यगर्सहवृता<sup>१</sup> पर याकूब ने गलेद<sup>२</sup> रक्खा ।  
 ४८ लाबान ने जो कहा कि यह ढेर आज से मेरे और तेरे  
 बीच साक्षी रहेगा इसी कारण उस का नाम गलेद रक्खा  
 ४९ गया, और मिजपा<sup>३</sup> भी क्योंकि उस ने कहा कि जब  
 हम एक दूसरे की आंखों की ओट रहें तब यहोवा हमारे  
 ५० बीच में ताकता रहे । यदि तू मेरी बेटियों को दुःख दे  
 वा उन से अधिक और स्त्रियां व्याह ले तो हमारे साथ  
 कोई मनुष्य तो न रहेगा पर देख मेरे तरे बीच में पर-  
 ५१ मेश्वर साक्षी रहेगा । फिर लाबान ने याकूब से कहा इस  
 ढेर को देख और इस खंभे को भी देख जिन को मैं ने  
 ५२ अपने और तरे बीच में खड़ा किया है । यह ढेर और  
 यह खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहें कि हानि करने की  
 मनसा से न तो मैं इस ढेर को लांघकर तरे पास जाऊं  
 न तू इस ढेर और इस खंभे को लांघकर मेरे पास  
 ५३ आएगा । इब्राहीम और नाहार और उन के पिता तीनों  
 का जो परमेश्वर है सो हम दोनों के बीच न्याय करे ।  
 तब याकूब ने उस की किरिया खाई जिस का भय उस  
 ५४ का पिता इसहाक मानता था । और याकूब ने उस पहाड़  
 पर मेलवलि चढ़ाया और अपने भाईबन्धुओं को भोजन  
 करने के लिये बुलाया सो उन्हीं ने भोजन करके पहाड़  
 ५५ पर रात बिताई । बिहान को लाबान तड़के उठ अपने  
 बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया  
 और अपने स्थान को लौट गया । और याकूब ने भी

३२. अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे  
 २ आ मिले । उन को देखते ही याकूब ने कहा  
 यह तो परमेश्वर का दल है सो उस ने उस स्थान का  
 नाम महनैम<sup>४</sup> रक्खा ॥

(याकूब के एसाव से मिलने और उस के इलापल नाम रखे जाने का वर्णन)

३ तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात् एदोम देश में  
 अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिये ।  
 ४ और उस ने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से  
 यों कहना कि तेरा दास याकूब तुझ से यों कहता है कि  
 ५ मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब लौं रहा । और  
 मेरे गाय बैल गदहे भेड़ बकरियां और दास दासियां हो  
 गई हैं सो मैं ने अपने प्रभु के पास इस लिये संदेशा  
 ६ भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो । वे दूत  
 याकूब के पास लौटके कहने लगे, हम तरे भाई एसाव  
 के पास गये थे और वह भी तुझ से भेंट करने को चार

(१) अर्थात् अरामी भाषा में साक्षी का ढेर । (२) अर्थात् इब्रानी भाषा  
 में साक्षी का ढेर । (३) अर्थात् ताकने का स्थान । (४) अर्थात् दो दल ।

सौ पुरुष संग लिये हुए चला आता है । तब याकूब ७  
 निपट डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर  
 अपने संगवालों के और भेड़ बकरियों गाय बैलों और  
 ऊंटों के भी अलग अलग दो दल कर लिये, कि यदि ८  
 एसाव आकर पहिले दल को मारने लगे तो दूसरा दल  
 भागकर बचेगा । फिर याकूब ने कहा हे यहोवा हे मेरे ९  
 दादा इब्राहीम के परमेश्वर हे मेरे पिता इसहाक के पर-  
 मेश्वर तू ने तो मुझ से कहा कि अपने देश और जन्म-  
 भूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा । तू ने जो १०  
 जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के  
 साथ किये हैं कि मैं जो अपनी लुढ़ी ही लेकर इस यर्दन  
 नदी के पार उतर आया सो अब मेरे दो दल हो गये हैं  
 तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं ।  
 मेरी बिनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से ११  
 बचा, मैं तो उस से डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि वह  
 आकर मुझे और मा समेत लड़कों को भी मार डाले ।  
 तू ने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और १२  
 तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत  
 करूंगा जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जाते । और उस १३  
 ने उस दिन की रात वहीं बिताई और जो कुछ उस के  
 पास था उस में से अपने भाई एसाव की भेंट के लिये  
 छोट छोटकर निकाला, अर्थात् दो सौ बकरियां और १४  
 बीस बकरे दो सौ भेड़ें और बीस भेड़ें, बच्चों समेत दूध १५  
 देती हुई तीस ऊंटनियां चालीस गायें दस बैल बीस गद-  
 हियां और गदहियों के दस बच्चे । इन को उस ने भुण्ड १६  
 भुण्ड करके अपने दासों को सौंपकर उन से कहा मेरे  
 आगे बढ़ जाओ और भुण्डों के बीच बीच में अन्तर  
 रक्खो । फिर उस ने अगले भुण्ड के रखवाले को यह १७  
 आज्ञा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुम्हें मिले और पूछने  
 लगे कि तू किस का दास है और कहा जाता है और ये  
 जो तरे आगे हैं सो किस के हैं, तब कहना कि तरे दास १८  
 याकूब के हैं, हे मेरे प्रभु एसाव ये भेंट के लिये तरे  
 पास भेजे गये हैं और वह आप भी हमारे पीछे है ।  
 और उस ने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी बरन उन १९  
 सभों को जो भुण्डों के पीछे पीछे थे ऐसी ही आज्ञा दी  
 कि जब एसाव तुम का मिले तब इसी प्रकार उस से  
 कहना । और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे २०  
 पीछे है । क्योंकि उस ने सांचा था कि यह भेंट जो मेरे  
 आगे आगे जाती है, इस के द्वारा मैं उस के क्रोध को  
 शान्त करके तब उस का दर्शन करूंगा क्या जानिये  
 वह मुझ से प्रसन्न हो । सो वह भेंट याकूब से पहिले पार २१  
 उतर गई और वह आप उस रात को छाबनी में रहा ॥

२२ उसी रात को वह उठ अपनी दोनों स्त्रियों और  
 २३ दोनों लौहिणियों और ग्यारहों लड़कों को संग लेकर घाट  
 २४ से यन्त्रोक नदी के पार उतर गया । और उस ने उन्हें  
 २५ उस नदी के पार उतार दिया वरन अपना सब कुछ  
 २६ उतार दिया । और याकूब आप अकेला रह गया तब  
 २७ कोई पुरुष आकर पह फटने लौ उस से मल्लयुद्ध करता  
 २८ रहा । जब उस ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता  
 २९ की नम उस से मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई । तब  
 ३० उस ने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पह फटती है याकूब ने  
 ३१ कहा, जब लौ तू मुझे आशीर्वाद न दे तब लौ मैं तुझे  
 ३२ जाने न दूंगा । और उस ने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या  
 ३३ है उस ने कहा याकूब । उस ने कहा तेरा नाम अब  
 ३४ याकूब न रहेगा इस्राएल<sup>१</sup> रक्खा गया है क्योंकि तू  
 ३५ परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ  
 ३६ है । याकूब ने कहा मुझे अपना नाम बता उस ने कहा  
 ३७ तू मेरा नाम क्यों पूछता है तब उस ने उस को वहीं  
 ३८ आशीर्वाद दिया । तब याकूब ने यह कह कर उस स्थान  
 ३९ का नाम पनीएल<sup>२</sup> रक्खा कि परमेश्वर को आम्हने  
 ४० साम्हने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है । पनीएल  
 ४१ के पास से चलते चलते याकूब को सूर्य उदय हो गया  
 ४२ और वह जांघ से लंगड़ाता था । इस्राएली जो पशुओं की  
 जांघ को जोड़वाले जंघानस का आज के दिन लौ नहीं  
 खाते इस का यही कारण है कि उस पुरुष ने याकूब की  
 जांघ को जोड़ में जंघानस को छुआ था ॥

### ३३. और याकूब ने आखें उठाकर यह

देखा कि एसाव चार सौ पुरुष  
 संग लिये हुए चला आता है तब उस ने लड़केवालों को  
 अलग अलग बांटकर लेआ और राहेल और दोनों  
 २ लौहिणियों को सौंप दिया । और उस ने सब के आगे  
 लड़कों समेत लौहिणियों का उस के पीछे लड़कों समेत  
 लेआ को और सब के पीछे राहेल और यूसुफ का रक्खा,  
 ३ और आप उन सभी के आगे बढ़ा और सात बार भूमि  
 पर गिरके दण्डवत् की और अपने भाई के पास पहुंचा ।  
 ४ तब एसाव उस से भेंट करने को दौड़ा और उस को  
 हृदय में लगाकर गले से लिपट कर चूमा फिर वे दोनों  
 ५ रो उठे । तब उस ने आखें उठाकर स्त्रियों और लड़के-  
 वालों को देखा और पूछा ये जो तेरे साथ हैं सो कौन हैं  
 उस ने कहा ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने  
 ६ अनुग्रह करके मुझ को दिया है । तब लड़कों समेत  
 ७ लौहिणियों ने निकट आकर दण्डवत् की । फिर लड़कों  
 (१) अर्थात् ईश्वर से मुद्ध करनेवाला । (२) अर्थात् ईश्वर का मुख ।

समेत लेआ निकट आई और उन्होंने ने भी दण्डवत् की  
 पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दण्डवत् की ।  
 तब उस ने पूछा तेरा यह बड़ा दल जो मुझ को मिला ८  
 उस का क्या प्रयोजन है उस ने कहा यह कि मेरे प्रभु को  
 अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो । एसाव ने कहा हे मेरे भाई ९  
 मेरे पास तो बहुत है जो कुछ तेरा है सो तेरा ही रहे ।  
 याकूब ने कहा नहीं नहीं यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो १०  
 तो मेरी भेंट ग्रहण कर क्योंकि मैं ने तेरा दर्शन पाकर  
 मानों परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझ से प्रसन्न  
 हुआ है । सो यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर ११  
 क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे  
 पास बहुत है । जब उस ने उस को दबाया तब उस ने  
 उस को ग्रहण किया । फिर एसाव ने कहा आ हम बढ़ १२  
 चलें और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा । याकूब ने कहा १३  
 हे मेरे प्रभु तू जानता होगा कि मेरे साथ सुकुमार लड़के  
 और दूध देनेहारी भेड़ वकरियां और गायें हैं, यदि ऐसे  
 पशु एक दिन भी अधिक हांके जाएं तो सब के सब मर  
 जाएंगे । सो मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए १४  
 और मैं इन पशुओं की गति अनुसार जो मेरे आगे हैं  
 और लड़केवालों की गति अनुसार भी धीरे धीरे चलकर  
 सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा । एसाव ने कहा तो १५  
 अपने संगवालों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं ।  
 उन ने कहा यह क्यों इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु की  
 अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे । तब एसाव ने उसी १६  
 दिन सेईर जाने का अपना मार्ग लिया । और याकूब १७  
 वहां से कूच करके सुकोत को गया और वहां अपने लिये  
 एक घर और पशुओं के लिये भोंपड़े बनाये इसी कारण  
 उस स्थान का नाम सुकोत<sup>३</sup> पड़ा ॥

और याकूब जो पद्मनराम से आया था सो कनान १८  
 देश के सकेम नगर के पास कुशल नेम से पहुंच कर  
 नगर के साम्हने डेरे खड़े किये । और भूमि के जिस १९  
 खण्ड पर उस ने अपना तंबू खड़ा किया उस को उस  
 ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से एक सौ  
 कसीतों<sup>४</sup> में मोल लिया । और वहां उस ने एक वेदी २०  
 बनाकर उस का नाम एलेलोहे इस्राएल<sup>५</sup> रक्खा ॥

(दीना के भ्रष्ट किये जाने का वर्णन)

### ३४. और लेआ की बेटी दीना जिसे वह

याकूब की जन्माई जनी थी  
 उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली । तब २

(३) अर्थात् भोंपड़े । (४) इनका मूल्य संदिग्ध है ।

(५) अर्थात् ईश्वर इस्राएल का परमेश्वर ।

उस देश के प्रधान हिस्सी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उस के साथ कुकर्म करके उस को भ्रष्ट कर डाला । तब उस का जी याकूब की बेटी दीना से अटक गया और उस ने उस कन्या से प्रेम की बातें करके उस को धीरज बन्धाया । और शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा मुझे इस लड़की को मेरी स्त्री होने के लिये दिला दे । और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है और उस के पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे सो वह उन के आने लौं चुप रहा । और शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने का उस के पास गया । और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से निपट उदास और अति क्रोधित होकर आये क्योंकि शकेम ने जो याकूब की बेटी के साथ कुकर्म किया सो इस्राएल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिस का करना अनुचित है । हमोर ने उन सभी से कहा मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है सो उसे उस की स्त्री होने के लिये उस को दे दो । और हमारे साथ ब्याह किया करो अपनी बेटियां हम को दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो । और हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है इस में रहकर लेन देन करो और इस की भूमि निज कर लिया करो । और शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझ से कहो मेा मैं दूंगा । तुम मुझ से कितना ही मूल्य वा बदला क्यों न मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा इतना हो कि उस कन्या को स्त्री होने के लिये मुझे दो । तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहिन दीना को अशुद्ध किया है याकूब के पुत्रों ने शकेम और उस के पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया कि, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतनारहित पुरुष को अपनी बहिन दें क्योंकि इस से हमारी नाम-धराई होगी । इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाईं तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए । तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे । पर यदि तुम हमारी मानकर अपना खतना न कराओ तो हम अपनी लड़की को लेके चले जाएंगे । उन की इस बात पर हमोर और उस का पुत्र शकेम प्रसन्न हुए । और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था इस से उस ने वैसा करने में विलम्ब न किया । वह तो

अपने पिता के सारे घराने में से अधिक प्रतिष्ठित था । सो हमोर और उस का पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यों समझाने लगे कि, वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहने चाहते हैं सो उन्हें इस देश में रहके लेन देन करने दो देखो यह देश उन के लिये भी बहुत है फिर हम लोग उन की बेटियों को ब्याह लें और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें । वे लांग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न हैं कि उन की नाईं हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए । क्या उन की भेड़ बकरियां गाय बैल बरन उन के सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी इतना ही हो कि हम लोग उन की मान लें तो वे हमारे संग रहेंगे । सो जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सभी ने हमोर की और उस के पुत्र शकेम की मानी हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे । तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे तब शिमोम और लेवी नाम याकूब के दो पुत्रों ने जो दीना के भाई थे अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निध-इक घुसकर सब पुरुषों को घात किया । और हमोर और उस के पुत्र शकेम को उन्होंने ने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर में से निकाल ले गये । और याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इस लिये लूट लिया कि उसमें उन की बहिन अशुद्ध की गई थी । वे भेड़ बकरी गाय बैल और गदह और नगर और मैदान में जितना धन था । उस सब को और उन के बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गये बरन घर घर में जो कुछ था उस को भी उन्होंने ने लूट लिया । तब याकूब ने शिमोम और लेवी से कहा तुम ने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिजियों के मन में मुझ से घिन कराई है ? इस से तुम ने मुझे संकट में डाला है क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं ? सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार लेंगे सो मैं अपने घराने समेत मत्यानाश हां जाऊंगा । उन्होंने ने कहा, क्या वह हमारी बहिन के साथ वेश्या की नाईं बर्ताव करे ॥

(बन्यामीन का उत्पत्ति और राबेल की मृत्यु का वर्णन)

**३५. तब** परमेश्वर ने याकूब से कहा वहां से कूच करके बेटेल को जा और वहीं रह और वहां उस ईश्वर के लिये वेदी बना जिस ने तुझे

(१) मूल में परिजियों में मुझे इंगित किया । (२) मूल में मैं थोड़े ही लोग हूँ ।

उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था । तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उस के संग थे कहा तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो । और आओ हम यहां से कूच करके बेतेल को जाएं वहां मैं उस ईश्वर की एक वेदी बनाऊंगा जिस ने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उस में मेरे संग रहा । सो जितने पराये देवता उन के पास थे और जितने कुण्डल उन के कानों में थे उन सभी को उन्होंने याकूब को दिया और उस ने उन को उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया । तब उन्होंने कूच कर दिया और उन के चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया । सो याकूब उन सब समेत जो उस के संग थे कनान देश के लूज नगर को आया । वह नगर बेतेल भी कहावता है । वहां उस ने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एलबेतेल रक्खा क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था । और रिबका की दूध पिलानेहारी धाई दबोरा मर गई और बेतेल के नीचे बांज वृक्ष के तले उस को मिट्टी दी गई और उस बांज का नाम अह्लानबकूत रक्खा गया ॥

९ फिर याकूब के पहनराम से आने के पीछे परमेश्वर ने १० दूसरी बार उस को दर्शन देकर आशिष दी । और परमेश्वर ने उस से कहा अब लो तो तेरा नाम याकूब है पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा तू इस्राएल कहाएगा ११ सो उस ने उस का नाम इस्राएल रक्खा । फिर परमेश्वर ने उस से कहा मैं सर्वशक्तिमान् ईश्वर हूं तू फूले फले और बढ़े और तुझ से एक जाति बरन जातियों की एक मण्डली भी उत्पन्न होए और तेरे वंश में राजा उत्पन्न १२ होएं । और जो देश मैं ने इब्राहीम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूं और तेरे पीछे तेरे वंश को १३ भी दूंगा । तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उस ने याकूब से बातें कीं उस के पास से ऊपर चढ़ गया । और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें कीं उसी में याकूब ने पत्थर का खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ्य देकर तेल १५ डाल दिया । और जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें कीं १६ उस स्थान का नाम उस ने बेतेल रक्खा । उन्होंने ने बेतेल से कूच किया और जब उन्हें एप्रता को पहुंचने में थोड़ी ही दूर रह गया तब राहेल को जनने की बड़ी पीड़

(१) अर्थात् बेतेल का ईश्वर । (२) अर्थात् कलाई का बांज ।

आने लगीं । जब उस को बड़ी बड़ी पीड़ें उठती थीं तब १७ जनाई धाई ने उस से कहा मत डर अब की बेर भी तेरे बेटा ही होगा । तब वह मर गई और प्राण निकलते १८ निकलते उस ने तो उस बेटे का नाम बेनोनी रक्खा पर उस के पिता ने उस का नाम बिन्यामीन रक्खा । यों १९ राहेल मर गई और एप्रता अर्थात् बेतलेहेम के मार्ग में उस को मिट्टी दी गई । और याकूब ने उस की कबर पर २० एक खंभा खड़ा किया राहेल की कबर का वही खंभा आज लों बना है । फिर इस्राएल ने कूच किया और २१ एदेर नाम गुम्मट के आंग बढ कर अपना तंबू खड़ा किया । जब इस्राएल उस देश में बसा था तब एक दिन २२ रुबेन ने जाकर अपने पिता की सुरैतिन विल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इस्राएल के सुनने में आई ॥

याकूब के बारह पुत्र हुए । उन में से लेआ के तो २३ पुत्र थे हुए अर्थात् याकूब का जेठा रुबेन फिर शिमोन लेवी यहूदा इसाकार और जबूलून । और राहेल के पुत्र २४ थे हुए अर्थात् यूसुफ और बिन्यामीन । और राहेल की २५ लौएडी विल्हा के पुत्र थे हुए अर्थात् दान और नताली । और लेआ की लौएडी जिल्या के पुत्र थे हुए अर्थात् गाद २६ और आशेर याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उस से पहनराम में जन्मे ॥

और याकूब किर्यतर्वा अर्थात् हेब्रॉन के पासवाले मग्न २७ में अपने पिता इसहाक के पास आया और वहीं इब्राहीम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे । इसहाक की अवस्था २८ तो एक सौ अन्सी बरस की हुई । और इसहाक का २९ प्राण छूट गया और वह मर के अपने लोगों में जा मिला वह बूढ़ा और बहुत दिनी था और उस के पुत्र एसाव और याकूब ने उस को मिट्टी दी ॥

(एसाव की वंशावली)

### ३६. एसाव जो एदोम भी कहावता है उस की यह वंशावली है । एसाव ने तो २

कनानी लड़कियां ब्याह लीं अर्थात् हित्ती एलोन की बेटा आदा को और आहोलीयामा को जो अना की बेटा और हिच्वी सिबोन की नतिनी थी । फिर उस ने इस्राएल की बेटा बासमत को भी जो नवायेत की बहिन थी ब्याह लिया । आदा तो एसाव के जन्माये एलीपज को और ४ बासमत रूएल को जनी । और आहोलीयामा यूश यालाम ५ और कोरह को जनी एसाव के ये ही पुत्र कनान देश में जन्मे । और एसाव अपनी स्त्रियों और बेटे बेटियों और ६ घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी गाय बैल

(१) अर्थात् मेरी शोक मूल पुत्र । (४) अर्थात् दहिम हाथ का पुत्र ।

आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी सम्पत्ति को जो उस ने कनाम देश में संचय की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया । क्योंकि उन की सम्पत्ति इतनी ही गई थी कि वे एकट्टे न रह सके और पशुओं की बहुतायत के मारे उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे उन की समाई ८ न रही । एसाव जो एदोम भी कहावता है सो सेईर नाम ९ पहाड़ी देश में रहने लगा । सेईर नाम पहाड़ी देश में रहनेहारे एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली १० यह है । एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं अर्थात् एसाव की स्त्री आदा का पुत्र एलीपज और उसी एसाव की ११ स्त्री बासमत का पुत्र रूएल । और एलीपज के ये पुत्र हुए अर्थात् तेमान आमार सपा गाताम १२ और कनज । और एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्रा नाम एक सुरैतिन थी जो एलीपज के जन्माये अमालेक का जनी एसाव की स्त्री आदा के वंश में ये ही १३ हुए । और रूएल के ये पुत्र हुए अर्थात् नहत जेरह शम्मा और मिज्जा एसाव की स्त्री बासमत के वंश में ये १४ ही हुए । और आहोलीवामा जो एसाव की स्त्री और सिबोन की नतिनी और अना की बेटी थी उस के ये पुत्र हुए अर्थात् वह एसाव के जन्माये यूश यालाम १५ और केरह के जनी । एसाववंशियों के अधिपति ये हुए अर्थात् एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तो तेमान अधिपति आमार अधिपति सपा अधिपति कनज १६ अधिपति, कोरह अधिपति गाताम अधिपति अमालेख अधिपति एलीपजवंशियों में से एदोम देश में ये ही १७ अधिपति हुए और ये ही आदा के वंश में हुए । और एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए अर्थात् नहत अधिपति जेरह अधिपति शम्मा अधिपति मिज्जा अधिपति रूएलवंशियों में से एदोम देश में ये ही अधिपति हुए और ये ही एसाव की स्त्री बासमत के वंश में हुए । और एसाव की स्त्री आहोलीवामा के वंश में ये हुए अर्थात् यूश अधिपति यालाम अधिपति केरह अधिपति अना की बेटी आहोलीवामा जो १८ एसाव की स्त्री थी उस के वंश में ये ही हुए । एसाव जो एदोम भी कहावता है उस के वंश ये ही हैं और उन के अधिपति भी ये ही हुए ॥

२० सेईर जो होरी नाम जाति का था उस के ये पुत्र उस देश में पहिले से रहते थे अर्थात् लोतान शोबाल सिबोन अना, २१ दीशोन एसेर और दीशान एदोम देश में सेईर के ये ही २२ होरी जातिवाले अधिपति हुए । और लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए और लोतान की बहन तिम्रा

थी । और शोबाल के ये पुत्र हुए अर्थात् आल्वान २३ मानहत एबाल शपो और अनाम । और सिबोन के ये २४ पुत्र हुए अर्थात् अय्या और अना यह वही अना है जिस को जंगल में अपने पिता सिबोन के गदहों को चराते चराते तप्तकुंड मिले । और अना के दीशोन नाम पुत्र २५ हुआ और उसी अना के आहोलीवामा नाम बेटी हुई । और दीशोन के ये पुत्र हुए अर्थात् हेमदान एश्वान २६ थिन्नान और करान । एसेर के ये पुत्र हुए अर्थात् २७ बिल्हान जावान और अकान । दीशान के ये २८ पुत्र हुए अर्थात् ऊस और अरान । होरियों के अधिपति ये हुए अर्थात् लोतान अधिपति शोबाल अधिपति सिबोन अधिपति अना अधिपति, दीशान ३० अधिपति एसेर अधिपति दीशान अधिपति सेईर देश में होरी जातिवाले ये ही अधिपति हुए ॥

फिर जब इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज्य न ३१ किया था तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए अर्थात्, योर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उस की ३२ राजधानी का नाम दिन्हाबा है । बेला के मरने पर ३३ योस्त्रानिवासी जेरह का पुत्र योबाब उस के स्थान पर राजा हुआ । और योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का ३४ निवासी हूशाम उस के स्थान पर राजा हुआ । फिर हूशाम ३५ के मरने पर बदद का पुत्र हदद उस के स्थान पर राजा हुआ, यह वही है जिस ने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया और उस की राजधानी का नाम अबीत है । और हदद के मरने पर मस्केकावासी सम्ला उस के ३६ स्थान पर राजा हुआ । फिर सम्ला के मरने पर शाऊल ३७ जो महानद के तटवाले रहोबेत नगर का था सो उस के स्थान पर राजा हुआ । और शाऊल के मरने पर अक- ३८ योर का पुत्र बाल्हानान उस के स्थान पर राजा हुआ । और अकयोर के पुत्र बाल्हानान के मरने पर हदर उस ३९ के स्थान पर राजा हुआ और उस की राजधानी का नाम पाऊ है और उस की स्त्री का नाम महेतबेल है जो मजाहाब की नतिनी और मन्नेद की बेटी थी । फिर ४० एसाववंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उन के नाम ये हैं अर्थात् तिम्रा अधिपति अल्वा अधिपति यतेत अधिपति, आहोलीवामा अधिपति ४१ एला अधिपति पीनोन अधिपति, कनज अधिपति ४२ तेमान अधिपति मिबसार अधिपति, मग्दीएल अधिपति ईराम अधिपति । एदोमवंशियों ने जो देश अपना ४३ कर लिया था उस के निवासस्थानों में उन के ये ही अधिपति हुए । और एदोमी जाति का मूलपुरुष एसाव है ॥

(यूसुफ के बने जाने का वर्णन)

३७. याकूब तो कनान देश में रहता था जहाँ उस का पिता परदेशी होकर रहा था । और याकूब के वंश का वृत्तान्त यह है कि यूसुफ सत्तरह बरस का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का जो अपने पिता की स्त्री बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था सो उन की बुराइयों का समाचार उन के पिता के पास पहुँचाया करता था । याकूब अपने सब पुत्रों से बढ़के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उस के बुढ़ापे का पुत्र था और उस ने उस के लिये रंगबिरंगा अंगरखा बनवाया । सो जब उस के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है तब उन्होंने उस से बैर किया और उस के साथ मेल की बातें न कर सकते थे । यूसुफ ने एक स्वप्न देखकर अपने भाइयों से उस का वर्णन किया तब उन्होंने उस से और भी बैर किया । उस ने उन से कहा जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो । मानो हम लोग खेत में पूले बान्ध रहे हैं और मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को घेर के उसे दण्डवत् किया । तब उस के भाइयों ने उस से कहा क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा वा सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा ? सो उन्होंने उस के स्वप्नों और उस की बातों के कारण उस से और भी अधिक बैर किया । फिर उस ने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया कि सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चन्द्रमा और ग्यारह तारे मुझे दण्डवत् कर रहे हैं । यह स्वप्न उस ने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया तब उस के पिता ने उस को दण्डके कहा यह कैसा स्वप्न है जो तू ने देखा है क्या सचमुच मैं और तेरा माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरके दण्डवत् करेंगे । उस के भाई तो उस से डाह रखते थे पर उस के पिता ने उस के उस बचन को स्मरण रक्खा । और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिये शकेम को गये । तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा तेरे भाई तारा शकेम में चरा रहे होंगे सो जा मैं तुम्हें उन के पास भेजता हूँ । उस ने कहा जो आज्ञा । उस ने उस से कहा जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखकर मेरे पास समाचार ले आ सो उस ने उस को हेब्रोन की तराई में बिदा कर दिया और वह जाकर शकेम के पास पहुँचा

था, कि किसी जन ने उस को मैदान में भ्रमते हुए पाकर उस से पूछा तू क्या ढूँढता है । उस ने कहा मैं तो अपने भाइयों को ढूँढता हूँ मुझे बता कि वे कहाँ चरा रहे हैं । उस जन ने कहा वे तो यहाँ से चले गये हैं और मैं ने उन को यह कहते सुना कि आओ हम दोतान को चलें, सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया जब उन्होंने उस को आते दूर से देखा तब उस के निकट आने से पहिले उसे मार डालने को युक्ति विचारने लगे । और वे आपस में कहने लगे देखो वह स्वप्न देखनेहारा आ रहा है । सो आओ हम उस को घात करके किसी गड़हे में डाल दें तब कहेंगे कि कोई दुष्ट जन्तु उस को खा गया फिर देखेंगे कि उस के स्वप्नों का क्या फल होगा । यह सुनके रूबेन ने उस को उन के हाथ से बचाने की मनसा से कहा हम उस को प्राण से तो न मारें । फिर रूबेन ने उन से कहा लांहु मत बढ़ाओ उस को जंगल के इस गड़हे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ । वह उस को उन के हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुँचाना चाहता था । सो जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुँच गया तब उन्होंने उस का अंगरखा जो वह रंगबिरंगा पहिने था उतार लिया, और यूसुफ को उठाकर गड़हे में डाल दिया, गड़हा तो सूखा था उस में कुछ जल न था । तब वे रौंटी खाने को बैठ गये और आंखें उठाकर देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगन्धद्रव्य बलसान और गन्धरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है । तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा अपने भाई को घात करने और उस का खून छिपाने से क्या लाभ हाँगा । आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएँ क्योंकि वह हमारा भाई और हाड़ मांस ही है सो उस के भाइयों ने उस की गानी । तब मिस्रानी ब्योपारी उधर से होकर पहुँचे सो यूसुफ के भाइयों ने उस को उस गड़हे में से खींच के निकाला और इश्माएलियों के हाथ रूपे के बीस टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गये । और रूबेन ने गड़हे पर लौटकर क्या देखा, कि यूसुफ गड़हे में नहीं है सो उस ने अपने बछ फाड़े । और भाइयों के पास लौट कर कहा लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊँ । सो उन्होंने ने यूसुफ का अंगरखा ले एक बकरे को मारके उस के लोहू में उसे बोड़ दिया । और उन्होंने उस रंगबिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि यह हम को मिला है सो देखकर पहिचान ले कि तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं । उस ने

(१) मूल में याकूब की वंशावली । (२) मूल में मुझे देख

उस को पहिचान लिया और कहा हा मेरे पुत्र ही का अंगरखा तो है किसी दुष्ट जन्तु ने उस को खा लिया ३४ होगा निःसन्देह यूसुफ फाड़ डाला गया है। सो याकूब ने अपने बरू फाड़के काट में टाट पहिना और अपने पुत्र के लिये बहुत दिन लों विलाप करता रहा। ३५ तब उस के सब बेटे बेटियों ने उस को शान्ति देने का यत्न किया पर उस को शान्ति नहीं आई और वह कहता रहा नहीं नहीं मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा सो उस का पिता ३६ उस के लिये रोता रहा। और मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नाम फरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला ॥

(यहूदा के पुत्रों की उत्पत्ति का वयन)

### ३८. उन्हीं दिनों में यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा

नाम एक अदुल्लामवासी पुरुष के पास डेरा किया। २ वहां यहूदा ने शू नाम एक कनानी पुरुष की बेटों का ३ देखा और उस को ब्याहकर उस के पास गया। वह गर्भवती होकर एक पुत्र जनी और यहूदा ने उस का नाम ४ एर रक्खा। और वह फिर गर्भवती होकर एक पुत्र और ५ जनी और उस का नाम आनान रक्खा। फिर वह एक पुत्र और जनी और उस का नाम शेला रक्खा और जिस समय वह इस को जना उस समय यहूदा कजीब में ६ रहता था। और यहूदा ने तामार नाम एक स्त्री से ७ अपन जेठे एर का विवाह कर दिया। पर यहूदा का वह जेठा एर जा यहावा के लेंखे में दुष्ट था इस लिये यहूदा ने उस को मार डाला। तब यहूदा ने आनान से कहा अपनी भौजाई के पास जा और उस के साथ देबर का ८ धर्म करके अपन भाई के लिये सन्तान जन्मा। आनान तो जानता था कि सन्तान मेरा न उहरेगा सो जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उस ने भूमि पर रखलित करके नाश किया न हो कि उस को अपने भाई १० के लिये सन्तान उत्पन्न करे। यह जो काम उस ने किया सो यहूदा को बुरा लगा सो उस ने उस को भी ११ मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐला न हो कि अपने भाइयों की नाई शेला भी मरे अपनी बहू तामार से कहा जब लों मेरा पुत्र शेला समर्थ न हो तब लों अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रह, सो तामार १२ जाकर अपने पिता के घर में बैठी रही। बहुत दिन के बीतने पर यहूदा की स्त्री जो शू की बेटा थी सो मर गई फिर

(१) मूल में मद्यानियों।

यहूदा शोक से छूट कर अपने मित्र हीरा अदुल्लामवासी समेत तिम्ना को अपनी भेड़ बकरियों का रोआं कतराने के लिये गया। और तामार को यह समाचार मिला कि १३ तेरा ससुर तिम्ना को अपनी भेड़ बकरियों का रोआं कतराने के लिये जा रहा है। तब उस ने यह सोचकर १४ कि शेला समर्थ तो हुआ पर मैं उस की स्त्री नहीं होने पाई अपना विधवापन का पहिरावा उतारा और बुर्का डालकर अपने को टांप लिया और एनैम नगर के फाटक के पास जो तिम्ना के मार्ग में है जा बैठी। उस को देखकर यहूदा ने वेश्या समझा क्योंकि वह १५ अपना मुंह ढांपे हुए थी। सो उस ने उसे अपनी बहू न १६ जानकर मार्ग में उस की ओर फिर के कहा मुझे अपने पास आने दे, उस ने कहा मैं तुम्ह को अपने पास आने दू तो तू मुझे क्या देगा। उस ने कहा मैं अपनी बकरियों १७ में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा तब उस ने कहा भला उस के भेजने लों क्या तू हमारे पास कुछ बन्धक रख जाएगा। उस ने पूछा मैं कौन सा बन्धक १८ तेरे पास रख जाऊं। उस ने कहा अपनी वह छाप और डोरी और अपने हाथ की छड़ी। तब उस ने उस को वे वस्तुएं दीं और उस के पास गया सो वह उस से गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना १९ बुर्का उतार के अपना विधवापन का पहिरावा फिर पहिने रही। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र २० उस अदुल्लामवासी के हाथ भेज दिया, कि वह बन्धक का उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आये और उस को न पाकर, उस ने वहां के लोग से पूछा कि वह देवदासी कहा है २१ जो एनैम में मार्ग की एक ओर बैठी थी। उन्हां ने कहा यहां तो कोई देवदासी न थी। सो उस ने यहूदा के पास लौटके २२ कहा मुझे वह नहीं मिली बरन उस स्थान के लोगों ने कहा कि यहां तो कोई देवदासी न रही। तब यहूदा २३ ने कहा अच्छा वह बन्धक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोंग तुच्छ गिने जाएंगे, देख मैं ने बकरी का यह बच्चा भेज दिया पर वह तुम्हें नहीं मिली। तीन महीने २४ के पीछे यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू ने व्यभिचार किया, बरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हुई, तब यहूदा ने कहा उस को बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे निकाल रहे थे तब उस ने अपने ससुर २५ के पास कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूं, फिर उस ने यह भी कहलाया कि पाहचान तो सही कि यह छाप और डोरी और छड़ी किस की हैं। यहूदा ने उन्हें पहिचानकर कहा वह तो २६ मुझ से कम दोषी है क्योंकि मैं ने उसे अपने पुत्र शेला



को न ब्याह दिया । और उस ने उस से फिर कभी प्रसंग  
 २७ न किया । जब उस के जनने का समय आया तब क्या जान  
 २८ था कि उस के गर्भ में जुड़ौरे हैं । और जब वह जनने  
 लगी तब एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और जनाई  
 धाई ने लाल सूत लेकर उस के हाथ में यह कहती हुई  
 २९ बांध दिया है कि पहिले यही निकला । जब उस ने हाथ  
 समेट लिया तब उस का भाई निकल पड़ा और उस ने  
 कहा तू ने क्यों दरार कर लिया है इस कारण उस का  
 ३० नाम 'पेरस' रखवा गया । पीछे उस का भाई भी निकला  
 जिस के हाथ में वह लाल सूत बन्धा था और उस का  
 नाम जेरह रखवा गया ॥

(यूसुफ के बन्दोगृह में पढ़ने और उस से बूटने का वर्णन)

### ३६. जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया

तब पोतीपर नाम एक मिस्री  
 जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान  
 था उस ने उस को उस के ले आनेहारे इश्माएलियों के  
 १ हाथ से मोल लिया । जब यूसुफ अपने उस मिस्री  
 स्वामी के घर में रहा तब यहोवा उस के संग रहा सो  
 २ वह भाग्यवान् पुरुष हो गया । और यूसुफ के स्वामी  
 ने देखा कि यहोवा उस के संग रहता है और जो काम वह  
 करता है उस को यहोवा उस के हाथ से सफल कर देता  
 ४ है । तब उस को अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह  
 उस का टहलुआ ठहराया गया फिर उस ने उस को  
 अपने घर का अधिकारी करके अपना सब कुल उस के  
 ५ हाथ में सौंप दिया । और जब से उस ने उस को अपने  
 घर और अपने सब कुल का अधिकारी किया तब से  
 यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशिष  
 देने लगा और क्या घर में क्या मैदान में उस का जो  
 ६ कुल था सब पर यहोवा की आशिष होती थी । सो  
 उस ने अपना सब कुल यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़  
 दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी  
 संपत्ति का हाल कुछ न जानता था और यूसुफ सुन्दर  
 ७ और रूपवान् था । इन बातों के पीछे उस के स्वामी की  
 स्त्री ने यूसुफ की ओर आँख लगाई और कहा मेरे साथ  
 ८ सो । उस ने नकारके अपने स्वामी की स्त्री से कहा सुन  
 जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है सो मेरा स्वामी कुछ  
 नहीं जानता और उस ने अपना सब कुल मेरे  
 ९ हाथ में सौंप दिया है । इस घर में मुझ से बड़ा कोई  
 नहीं और उस ने तुम्हें छोड़ जाँ उस की स्त्री है मुझ से  
 कुछ नहीं रख छोड़ा सो मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके

(१) अर्थात् बूट पड़ना ।

परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूँ । तो भी वह दिन १०  
 दिन यूसुफ से बातें करती रही पर उस ने उस की न  
 सुनी कि कहीं उस के पास लेटे वा उस के संग रहे ।  
 एक दिन क्या हुआ कि वह अपना काम काज करने ११  
 को घर में गया और घर के सेवकों में से कोई घर में  
 न था । तब उस स्त्री ने उस का वस्त्र पकड़कर कहा मेरे १२  
 साथ सो पर वह अपना वस्त्र उस के हाथ में छोड़कर  
 भागा और बाहर निकल गया । यह देखकर कि वह १३  
 अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया,  
 उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा देखो १४  
 वह एक इब्री मनुष्य को हम से ठोली करने के लिये  
 हमारे पास ले आया है, वह तो मेरे साथ सोने के मत-  
 लव से मेरे पास आया और मैं ऊँचे स्वर से चिल्ला  
 उठी । और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे १५  
 पास छोड़ कर भागा और बाहर निकल गया । और १६  
 वह उस का वस्त्र उस के स्वामी के घर आने लाँ अपने  
 पास रखे रही । तब उस ने उस से इस प्रकार की १७  
 बातें कहीं कि वह इब्री दास जिस को तू हमारे पास ले  
 आया है सो मुझ से ठोली करने को मेरे पास आया  
 था । और जब मैं ऊँचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह १८  
 अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया । अपनी १९  
 स्त्री की ये बातें सुनकर कि तेरे दाम ने मुझ से ऐसा  
 ऐसा काम किया यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का ।  
 और यूसुफ के स्वामी ने उस को पकड़ाकर एक गुम्मत २०  
 में जहाँ राजा के बन्धुएँ बन्धे रहते थे डलवा दिया सो  
 वह उस गुम्मत में रहने लगा । पर यहोवा यूसुफ के २१  
 संग रहा और उस पर करुणा की और गुम्मत  
 के दारोगा से उस पर अनुग्रह की दृष्टि कराई ।  
 वरन गुम्मत के दारोगा ने उन सब बन्धुओं को जो २२  
 गुम्मत में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो  
 काम वे वहाँ करते थे उन का करानेहारा वहाँ होता था ।  
 गुम्मत के दारोगा के वश में जो कुछ था उस में से उस २३  
 को कोई वस्तु देखनी न पड़ती थी क्योंकि यहोवा यूसुफ  
 के साथ था और जो कुछ वह करता था यहाँवा उस को  
 सुफल कर देता था ॥

४०. इन बातों के पीछे मिस्र के राजा के  
 पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने  
 स्वामी का कुछ अपराध किया । तब फिरौन ने अपने उन २  
 दो हाकिमों पर अर्थात् पिलानेहारों के प्रधान और  
 पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित हो, उन्हें कैद कराके ३  
 जल्लादों के प्रधान के घर में के उसी गुम्मत में जहाँ  
 यूसुफ बन्धुआ था डलवा दिया । तब जल्लादों के प्रधान ने ४

उन को यूसुफ के हाथ सौंग और वह उन की टहल करने  
 ५ लगा, सो वे कुछ दिन सौ बन्दीगृह में रहे । और मिस्र के  
 राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा जो गुम्मत में  
 बन्धुए थे उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने  
 ६ होनहार के अनुसार<sup>१</sup> स्वप्न देखा । बिहान को जब यूसुफ  
 उन के पास गया तब उन पर जो दृष्टि की तो क्या देखा  
 ७ कि वे उदास हैं । सो उस ने फिरौन के उन हाकिमों  
 से जो उस के साथ उस के स्वामी के घरवाले बन्दीगृह  
 ८ में थे पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों सूखे हैं । उन्होंने  
 उस से कहा हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उन के  
 फल का कोई कहनेहारा नहीं । यूसुफ ने उन से कहा  
 क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है  
 ९ मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ । तब पिलानेहारों  
 का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को ये बताने लगा कि  
 मुझे स्वप्न में क्या देख पड़ा कि मेरे साम्हने एक  
 १० दाखलता है । और उस दाखलता में तीन डालियां  
 हैं और उस में मानो कलियां लगीं और वह फुलीं  
 ११ और उस के गुच्छों में दाख लगकर पक गई । और  
 फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था सो मैं ने उन दाखों  
 को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को  
 १२ फिरौन के हाथ में दिया । यूसुफ ने उस से कहा इस  
 का फल यह है कि तीन डालियों का अर्थ तीन दिन है ।  
 १३ सो तीन दिन के भीतर फिरौन तुम्हें बढ़ाकर<sup>२</sup> तेरे पद  
 पर फेर ठहराएगा और तू आगे की नाईं फिरौन का  
 १४ पिलानेहारा होकर उस का कटोरा उस के हाथ में  
 फिर दिया करेगा । सो जब तेरा भला होगा तब मुझे  
 अपने मन में रखे रहना और मुझ पर कृपा करके  
 फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे  
 ५ छुड़ा देना । क्योंकि सचमुच मैं इजिप्ट के देश से  
 चुराया गया और यहां भी मैं ने कोई ऐसा काम नहीं  
 किया जिम के कारण मैं इस गड़हे में डाला जाऊं ।  
 ६ यह देखकर कि उस स्वप्न का फल अच्छा निकला  
 पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा मैं ने भी  
 स्वप्न देखा है वह यह है कि मानो मेरे सिर पर सफेद  
 ७ रोटी की तीन टोकरियां हैं । और ऊपर की टोकरी में  
 फिरौन के लिये सब प्रकार की पकी पकाईं वस्तुएं  
 हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन  
 वस्तुओं को खा रहे हैं । यूसुफ ने कहा इस का  
 फल यह है कि तीन टोकरियों का अर्थ तीन दिन

है । सो तीन दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कठवाकर<sup>३</sup> २६  
 तुम्हें एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को  
 खाएंगे । तीसरे दिन जो फिरौन का जन्मदिन था उस ने २०  
 अपने सब कर्मचारियों की जेबनार की और उन में से  
 पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों  
 को बन्दीगृह से निकलवाया<sup>४</sup> । और पिलानेहारों के २१  
 प्रधान को तो पिलानेहारे का पद फेर दिया, सो वह  
 कटोरे को फिरौन के हाथ में देने लगा । पर पकानेहारों २२  
 के प्रधान को उस ने टंगवा दिया जैसा कि यूसुफ ने  
 उन के स्वप्नों का फल उन से कहा था । पर पिलानेहारों २३  
 के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रक्खा भूल ही गया ॥

४१. पूरे दो बरस के बीते पर फिरौन ने यह  
 स्वप्न देखा कि मैं मानो नील नदी<sup>५</sup>

के तीर पर खड़ा हूं । और उस नदी में से सात सुन्दर २  
 और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने  
 लगीं । और क्या देखा कि उन के पीछे और सात गायें ३  
 जो कुरूप और डांगर हैं नदी से निकली आती हैं और  
 दूसरी गायों के निकट नदी के तीर पर खड़ी हुईं । तब ४  
 मानो इन कुरूप और डांगर गाय ने उन सात  
 सुन्दर और मोटी मोटी गायों को खा डाला । तब  
 फिरौन जाग उठा । फिर वह सो गया और दूसरा ५  
 स्वप्न देखा कि एक इंठी में से सात मोटी और  
 अच्छी अच्छी बालें निकली आती हैं । और क्या देखा ६  
 कि उन के पीछे सात बालें पतली और पुरवाई से  
 मुरभाई हुई निकली आती हैं । और मानो इन पतली ७  
 बालों ने उन सातों मोटी और अन्न से भरी हुई बालों  
 को निगल लिया । तब फिरौन जागा और यह स्वप्न ही ८  
 था । भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उस ने  
 मिस्र के सब ज्योतिषियों और पण्डितों को बुलवा मेजा  
 और उन को अपने स्वप्न को बताए पर उन में से कोई ९  
 उन का फल फिरौन से न कह सका । तब पिलानेहारों  
 का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मुझे आज के दिन १०  
 अपने अपराध चेत आते हैं । जब फिरौन अपने दासों  
 से क्रांभित हुआ था और मुझे और पकानेहारों के  
 प्रधान को कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घरवाले  
 बन्दीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ११  
 ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार<sup>६</sup> स्वप्न  
 देखा । और वहां हमारे साथ एक इज्जी जवान १२  
 था जो जल्लादों के प्रधान का दास था, सो हम ने उस

(१) मूल में अपने अपने स्वप्न के फल कहने के अनुसार । (२) मूल में सिर उठाके ।

(३) मूल में तेरा सिर तुझ पर से उठाके । (४) मूल में दोनों के सिर उठाये । (५) मूल में थोर । (६) मूल में अपने अपने स्वप्न के फल कहने के अनुसार ।

को बताया और उस ने हमारे स्वप्नों का फल हम से कहा हम में से एक एक के स्वप्न का फल उस ने १३  
 बताया । और जैसा जैसा फल उस ने हम से कहा १४  
 वैसा वैसा निकला भी अर्थात् मुझ को तो मेरा पद फिर १५  
 मिला पर वह टांगा गया । तब फिरौन ने यूसुफ को १६  
 बुलवा भेजा और वह भटपट गड़हे से निकाला गया १७  
 और बाल मंडवा बल्ल बदल के फिरौन के पास आया । १८  
 फिरौन ने यूसुफ से कहा मैं ने एक स्वप्न देखा और उस १९  
 के फल का कहनेहारा कोई नहीं और मैं ने तेरे विषय २०  
 में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उस का फल कह सकता २१  
 है । यूसुफ ने फिरौन से कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता २२  
 परमेश्वर ही फिरौन के लिये मंगल का बखान कराए । २३  
 सो फिरौन यूसुफ से कहने लगा मैं ने अपने स्वप्न में २४  
 क्या देखा कि मानो मैं नील नदी के तीर पर खड़ा हूँ । २५  
 फिर क्या देखा कि नदी में से सात मोटी और सुन्दर २६  
 सुन्दर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगीं । फिर २७  
 क्या देखा कि उन के पीछे सात और गायें निकली आती २८  
 हैं जो दुबली और बहुत कुरूप और डांगर हैं मैं ने तो २९  
 सारे मिस्र देश में ऐसी कुडौल गायें कभी नहीं देखीं । ३०  
 और मानो इन डांगर और कुडौल गायों ने उन पहली ३१  
 सातों मोटी मोटी गायों को खा डाला । और जब वे ३२  
 उन का खा गई थीं तब यह समझ न पड़ा कि वे उन ३३  
 को खा गई हैं क्योंकि उन का रूप पहिले के बराबर ३४  
 बुरा ही रहा तब मैं जाग उठा । फिर मैं ने दूसरा स्वप्न ३५  
 देखा कि मानो एक ही डंडी में सात अच्छी अच्छी और ३६  
 अन्न से भरी हुई बालें निकली आती हैं । फिर क्या ३७  
 देखता हूँ कि उन के पीछे और सात बालें छूछी ३८  
 छूछी और पतली और पुरवाई से मुर्बाई हुई निकलती ३९  
 हैं । और मानो इन पतल बालों ने उन सात अच्छी ४०  
 अच्छी बालों का निगल लिया । इसे मैं ने ज्योतिषियों को ४१  
 बताया पर इस का समझानेहारा कोई नहीं मिला । तब ४२  
 यूसुफ ने फिरौन से कहा फिरौन का स्वप्न एक ही है ४३  
 परमेश्वर जो काम किया चाहता है उस को उस ने ४४  
 फिरौन को जताया है । वे सात अच्छी अच्छी गायें ४५  
 सात बरस हैं और वे सात अच्छी अच्छी बालें सात ४६  
 बरस हैं स्वप्न एक ही है । फिर उन के पीछे जो डांगर ४७  
 और कुडौल गायें निकलीं और जो सात छूछी और ४८  
 पुरवाई से मुर्बाई हुई बालें हुईं वे अकाल के साथ ४९  
 बरस होंगे । यह यही बात है जो मैं फिरौन से कह ५०  
 चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है सो ५१  
 उस ने फिरौन को दिखाया है । सुन सारे मिस्र देश में ५२

(१) मूल में मेरे बिना ।

बड़े सुकाल के सात बरस आनेहारे हैं । और उन के ३०  
 पीछे अकाल के सात बरस आएंगे और मिस्र देश में ३१  
 वह सारा सुकाल बिसर जाएगा और अकाल से देश ३२  
 नाश होगा । और उस अकाल के कारण जो पीछे ३३  
 आएगा यह सुकाल देश में स्मरण न रहेगा क्योंकि ३४  
 अकाल अत्यन्त भारी होगा । और फिरौन ने जो यह स्वप्न ३५  
 दो बार देखा इस का भेद यह है कि यह बात परमेश्वर ३६  
 की ओर से स्थिर की हुई है और परमेश्वर इसे शीघ्र ३७  
 ही पूरा करेगा । सो अब फिरौन किसी समझदार और ३८  
 बुद्धिमान् पुरुष की खोज करके उसे मिस्र देश पर प्रधान ३९  
 ठहराए । फिरौन यह करके देश पर अधिकारियों का ४०  
 ठहराए और जब लों सुकाल के सात बरस रहें तब लों ४१  
 मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे । वे इन अच्छे ४२  
 बरसों में सब प्रकार की भोजनवस्तु बटोर बटोरकर ४३  
 नगर नगर में अन्न की राशियां भोजन के लिए फिरौन ४४  
 के बश में करके उन की रक्षा करें । और वह भोजन- ४५  
 वस्तु अकाल के उन सात बरसों के लिए जो मिस्र देश में ४६  
 आएंगे देश के भोजन के निमित्त रक्खी रहे जिस से देश ४७  
 उस अकाल से सत्यानाश न हो । यह बात फिरौन और ४८  
 उस के सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी । सो फिरौन ने ४९  
 अपने कर्मचारियों से कहा इस पुरुष के समान क्या और ५०  
 कोई ऐसा मिलेगा कि परमेश्वर का आत्मा उस में रहता ५१  
 हो । फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुझे ५२  
 इतना ज्ञान दिया है और तेरे तुल्य कोई समझदार और ५३  
 बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी हो और ५४  
 तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी केवल राजगद्दी ५५  
 के विषय मैं तुझ से बड़ा ठहरूंगा । फिर फिरौन ने यूसुफ ५६  
 से कहा सुन मैं तुझ को मिस्र के सारे देश के ऊपर ठहरा ५७  
 देता हूँ । तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालके ५८  
 यूसुफ के हाथ में पहिना दी और उस को सूक्ष्म सनी ५९  
 के बख पहिनवा दिये और उस के गले में सोने की गोप ६०  
 डाल दी, और उस को अपने दूसरे रथ पर चढवाया ६१  
 और लोग उस के आगे आगे यह पुकारते चले कि ६२  
 घुटने टेक घुटने टेक सो उस ने उस को मिस्र के सारे देश के ६३  
 ऊपर ठहराया । फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा फिरौन ६४  
 तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई तेरी आज्ञा बिना ६५  
 हाथ पांव न हिलाएगा । और फिरौन ने यूसुफ का ६६  
 नाम सापनत्पानेह<sup>२</sup> रक्खा और अन्न नगर के याजक ६७  
 पोर्तापेरा की बेटी आसनत से उस का ब्याह करा दिया । ६८  
 और यूसुफ निकल कर मिस्र देश में घूमने फिरने लगा ।

(२) मूल में अन्नक । इस भिन्नी शब्द का अर्थ निश्चित नहीं ।

(३) इस भिन्नी शब्द के अर्थ में संदेह है ।

४६ जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सन्मुख खड़ा हुआ तब वह तीस बरस का था, सो वह फिरौन के सन्मुख से निकल कर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा ।  
 ४७ सुकाल के सातों बरसों में भूमि बहुतायत से अन्न ?  
 ४८ उपजाती रही । और यूसुफ उन सातों बरसों में सब प्रकार की भोजनवस्तुएं जो मिस्र देश में होती थीं बटोर बटोरके नगरों में रखता गया एक एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजनवस्तुओं को वह उसी नगर में  
 ४९ संचय करता गया । सो यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यन्त बहुतायत से राशि राशि करके रक्खा यहां लों कि उस ने उन का गिनना छोड़ दिया  
 ५० क्योंकि वे असंख्य हो गईं । अकाल के प्रथम बरस के आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र ओन के याजक  
 ५१ पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे । और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहके मनश्शे रक्खा कि परमेश्वर ने मुझ से मेरा मारा क्लेश और मेरे पिता का  
 ५२ मारा धराना बिसरवा दिया है । और दूसरे का नाम उस ने यह कहकर एप्रैम<sup>३</sup> रक्खा कि मुझे दुःख भोगने  
 ५३ के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है । और  
 ५४ मिस्र देश के सुकाल के वे सात बरस निपट गये । और अकाल के सात बरस यूसुफ के कहेके अनुसार आने लगे और सब देशों में अकाल पड़ा पर सारे मिस्र देश  
 ५५ में अन्न था । जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था यूसुफ के पास  
 ५६ जाओ और जो कुछ वह तुम से कहे वही करो । सो जब अकाल सारी पृथिवी पर फैल गया और मिस्र देश में भारी हो गया तब यूसुफ सब भरदारों को खोल खोल के  
 ५७ मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा । सो सारी पृथिवी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने को यूसुफ के पास आने लगे क्योंकि सारी पृथिवी पर भारी अकाल था ॥

(यूसुफ के भाइयों के उस से मिलने का वचन)

**४२. जब** याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है

तब उस ने अपने पुत्रों से कहा तुम

२ एक दूसरे का मुंह क्यों ताकते हो । फिर उस ने कहा मैं ने तो सुना है कि मिस्र में अन्न है, सो तुम लोग वहां जाकर हमारे लिये अन्न मोल ले आओ, कि हम मरें  
 ३ नहीं, जीते रहें । सो यूसुफ के दस भाई अन्न मोल लेने  
 ४ के लिये मिस्र को गये । पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सौचकर भाइयों के साथ भेजना नकारा

(१) मूल में सुट्टी भर भरके । (२) अर्थात् बिसरवानेहारा ।

(३) अर्थात् अत्यन्त उपजाऊ ।

कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति पड़े । सो ५  
 और और आनेहारों की भान्ति इस्राएल के पुत्र भी अन्न मोल लेने आये क्योंकि कनान देश में भी अकाल था । यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के ६  
 सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था सो जब यूसुफ के भाई आये तब भूमि पर मुंह के बल गिरके उस को दण्डवत् किया । उन को देखकर यूसुफ ने पहिचान तो ७  
 लिया पर उन के साम्हने अनजान बनके कठोरता के साथ उन से पूछा तुम कहां से आते हो, उन्होंने ने कहा हम तो कनान देश से अन्न मोल लेने का आये हैं । यूसुफ ने तो ८  
 अपने भाइयों को पहिचान लिया पर उन्होंने ने उस को न पहिचाना । सो यूसुफ अपने वे स्वप्न स्मरण करके जो ९  
 उस ने उन के विषय देखे थे उन से कहने लगा तुम भेदिये हो इस देश की दुर्दशा को देखने के लिये आये हो । उन्होंने ने उस से कहा नहीं नहीं हे प्रभु तेरे दास १०  
 भोजनवस्तु मोल लेने को आये हैं । हम सब एक ही ११  
 पुरुष के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं तेरे दास भेदिये नहीं । उस ने उन से कहा नहीं नहीं तुम इस देश की १२  
 दुर्दशा देखने ही को आये हो । उन्होंने ने कहा हम तेरे १३  
 दास बारह भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक रहा नहीं । यूसुफ ने उन से कहा मैं ने जो १४  
 तुम से कहा कि तुम भेदिये हो, सो इस रीति से तुम १५  
 परखे जाओगे फिरौन के जीवन की सो जब लों तुम्हारा छोटा भाई यहां न आए तब लों तुम यहां से न निकलने पाओगे । सो अपने में से एक को भेज दो कि वह १६  
 तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बन्धुआई में रहोगे इस से तुम्हारी बातें परखी जाएंगी, कि तुम में सच्चाई है कि नहीं, न होने से फिरौन के जीवन की सो निश्चय तुम भेदिये ही ठहरोगे । तब उस ने उन को तीन १७  
 दिन लों बन्दीगृह में रक्खा । तीसरे दिन यूसुफ ने उन १८  
 से कहा एक काम करो तब जीते रहोगे क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं । यदि तुम सीधे मनुष्य हो १९  
 तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बन्दीगृह में बन्धुआ रहे और तुम अपने घरवालों की भूख बुझाने के लिये अन्न ले जाओ । और अपने छोटे भाई को २०  
 मेरे पास ले आओ, यों तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले न जाओगे । सो उन्होंने ने वैसा ही किया । तब उन्होंने ने आपस में कहा निःसन्देह हम २१  
 अपने भाई के विषय में दोषी हैं कि जब उस ने हम से गिड़गिड़ाके बिनती की तब हम ने यह देखने पर भी

(४) मूल में नंगेपन ।

कि उस का जीव कैसे संकट में पड़ा है उस की न सुनी  
 २२ इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रुबेन ने  
 उन से कहा क्या मैं ने तुम से न कहा था कि लड़के के  
 अपराधी मत हो और तुम ने न सुना सो देखो अब  
 २३ उस के लॉहू का पलटा दिया जाता है। यूसुफ की  
 और उन की बातचीत जो एक दुभाषिया के द्वारा होती  
 थी इस से उन का मालूम न था कि वह हमारी  
 २४ समझता है। और वह उन के पास से हटकर राने  
 लगा फिर उन के पास लौटकर और उन से बातचीत  
 करके उन में से शिमोन का निकाला और उन के साम्हने  
 २५ बन्धुआ रक्खा। तब यूसुफ ने आशा दी कि उन के  
 बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उस के  
 रूपये को भी रख दो और उन को मार्ग के लिये सीधा  
 २६ दो सो उन के साथ ऐसा ही किया गया। तब वे  
 अपना अन्न अपने गदहों पर लाद कर वहां से चल  
 २७ दिये। सराय में जब एक ने अपने गदहे को चारा देने  
 के लिये अपना बोरा खोला तब उस का रूपया बोरे के  
 २८ मोहड़े पर रक्खा हुआ देख पड़ा। तब उस ने अपने  
 भाइयों से कहा मेरा रूपया तो फेर दिया गया है देखा  
 वह मेरे बोरे में है तब उन के जी में जी न रहा और  
 वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले  
 २९ कि परमेश्वर ने यह हम से क्या किया है। सो वे कनान  
 देश में अपने पिता याकूब के पास आये और अपना  
 ३० सारा वृत्तान्त उस से यां बर्णन किया कि जो पुरुष  
 उस देश का स्वामी है उस ने हम से कठोरता के साथ  
 ३१ बातें कीं और हम को देश के भेदिये ठहराया। तब  
 ३२ हम ने उस से कहा हम सीधे लोग हैं, भेदिये नहीं। हम  
 बारह भाई एक ही पुरुष के पुत्र हैं, एक तां रहा नहीं  
 और छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के  
 ३३ पास है। तब उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है  
 हम से कहा इसी से मैं जान लूंगा कि तुम सीधे  
 मनुष्य हो अपने में से एक का मेरे पास छोड़के अपने  
 ३४ घरवालों की भूख बुझाने के लिये कुछ ले जाओ। और  
 अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, तब मैं जानूंगा  
 कि तुम भेदिये नहीं सीधे लोग हो और तब मैं तुम्हारे  
 भाई को तुम्हें फेर दूंगा और तुम इस देश में लेन देन  
 ३५ करने पाओगे। फिर जब वे अपने अपने बोरे से अन्न  
 निकालने लगे तब क्या देखा कि एक एक जन के  
 रूपये की धैली उसी के बोरे में रक्खी है सो रूपये की  
 ३६ धैलियों का देखकर वे और उन का पिता डर गये। फिर  
 उन के पिता याकूब ने उन से कहा मुझ को तुम ने

(१) मूल में अपने पिता के।

निर्वेश किया देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी  
 नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाने  
 चाहते हो ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। रुबेन  
 ३७ ने अपने पिता से कहा यदि मैं उस को तेरे पास न  
 लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों का मार डालना तू उस को  
 मेरे हाथ में सौंप तो दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा  
 दूंगा। उस ने कहा मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा  
 ३८ क्योंकि उस का भाई मर गया और वह अकेला रह गया सो  
 जिस मार्ग से तुम जाओगे उस में यदि उस पर कोई  
 विपत्ति आ पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस पक्के बाल की  
 अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा?।

### ४३. और अकाल देश में और भारी हो

गया। सो जब वह अन्न जो  
 १ वे मिस्र से ले आये चुक गया तब उन के पिता ने उन से  
 कहा फिर जाकर हमारे लिये थोड़ी सी भोजनवस्तु मोल  
 ले आओ। तब यहूदा ने उस से कहा उस पुरुष ने हम से  
 २ चिंता चिंताकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न  
 आए तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। सो यदि तू  
 ४ हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे  
 लिये भोजनवस्तु मोल ले आएंगे। पर यदि तू उस को न  
 ५ भेजे तो हम न जाएंगे क्योंकि उस पुरुष ने हम से कहा  
 कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे  
 ६ सनमुख न आने पाओगे। तब इस्राएल ने कहा तुम ने  
 उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है  
 ७ क्यों मुझ से बुरा बताव किया। उन्होंने कहा जब उस  
 पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुम्बियों की दशा का  
 इस रीति पूछा कि क्या तुम्हारा पिता अब लों  
 जीता है क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है तब  
 हम ने इन प्रश्नों के अनुसार उस से बर्णन किया, फिर  
 क्या हम कुछ भी जानते थे कि वह कहेगा अपने भाई  
 को यहां ले आओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल  
 ८ से कहा उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले  
 जाएं इस से हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न  
 पाएंगे जीते रहेंगे। मैं उस का जामिन होता हूं मेरे ही  
 ९ हाथ से तू उस को फेर लेना यदि मैं उस को तेरे पास  
 पहुंचाकर साम्हने न खड़ा कर दू तो मैं सदा के लिये  
 तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग बिलम्ब न करते  
 १० तो अब लों दूसरी बार लौटकर आ चुकते। तब उन के  
 ११ पिता इस्राएल ने उन से कहा यदि सचमुच ऐसी ही  
 बात है तो यह करो इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में  
 से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिये भेंट ले

(२) मूल में तुम मेरे पक्के बाल अधोलोक में शोक के साथ उतारोगे।

जाओ जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और  
कुछ सुगन्ध द्रव्य और गन्धरस पिस्ते और बादाम ।  
१२ फिर अपने अपने साथ दूना रूपया ले जाओ जो रूपया  
तुम्हारे बोरों के मोहड़े पर फेर दिया गया उस को भी  
१३ लेते जाओ क्या जानिये यह मूल से हुआ हो । और  
अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर  
१४ जाओ, और सर्वशक्तिमान् ईश्वर उस पुरुष को तुम पर  
दयालु करे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन  
को भी आने दे और मैं निर्वेश हुआ तो हुआ ॥

१५ तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रूपया और  
बिन्यामीन को भी संग लेकर चल दिये और मिस्र में  
१६ पहुंचकर यूसुफ के साम्हने खड़े हुए । उन के साथ  
बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी  
से कहा उन मनुष्यों को घर में पहुंचा और पशु मारके  
भोजन तैयार कर क्योंकि वे लौंग दोपहर को मेरे संग  
१७ भोजन करेंगे । सो वह जन यूसुफ के कहने के अनुसार  
१८ करके उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले चला । वे जो  
यूसुफ के घर को पहुंचाये गये इस से डरकर कहने लगे  
जो रूपया पहिली बार हमारे बोरों में फेर दिया गया  
उसी के कारण हम भीतर पहुंचाये जाते हैं कि वह पुरुष  
हम पर टूट पड़े और दबाकर अपने दास बनाए और  
१९ हमारे गदहों को छीन ले । सो वे यूसुफ के घर के अधि-  
कारी के निकट घर के द्वार पर जाकर यों कहने लगे कि,  
२० हे हमारे प्रभु हम पहिली बार अन्न मोल लेने को आये  
२१ थे, और जब हम ने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को  
खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा रूपया  
उस के बोरों के मोहड़े पर रक्खा है सो हम उस को  
२२ अपने साथ फिर लेते आये हैं । और दूसरा रूपया भी  
भोजनवस्तु मोल लेने को ले आये हैं हम नहीं जानते  
कि हमारा रूपया हमारे बोरों में किस ने रख दिया था ।  
२३ उस ने कहा तुम्हारा कुशल हो मत डरो तुम्हारा परमेश्वर  
जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है उसी ने तुम को  
तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा तुम्हारा रूपया मुझ को  
तो मिल गया था और उस ने शिमोन को निकालकर उन  
२४ के संग कर दिया । तब उस जन ने उन मनुष्यों को  
यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया और उन्होंने ने अपने  
पांवों को धोया और उस ने उन के गदहों के लिये चारा  
२५ दिया । तब यह सुनके कि आज हम को यहीं भोजन  
करना होगा उन्होंने ने यूसुफ के आने के समय लौ अर्थात्  
२६ दोपहर लौ उस भेंट को संजोय रक्खा । जब यूसुफ घर  
आया तब वे उस भेंट को जो उन के हाथ में थी उस के  
सम्मुख घर में ले गये और भूमि पर गिरके उस को

दण्डवत् किया । उस ने उन का कुशल पूछा और कहा २७  
क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिस की तुम ने चर्चा की  
थी कुशल से है क्या वह अब लों जीता है । उन्होंने ने २८  
कहा हां तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब  
लों जीता है तब उन्होंने ने सिर झुकाकर फिर दण्डवत्  
की । तब उस ने आखें उठा कर और अपने सगे भाई २९  
बिन्यामीन को देखकर पूछा क्या तुम्हारा वह छोटा भाई  
जिस की चर्चा तुम ने मुझ से की थी यही है, फिर उस  
ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे । तब ३०  
अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और  
यह सोचकर कि मैं कहां रोजं यूसुफ कुर्ती से अपनी  
कोठरी में गया और वहां रो दिया । फिर अपना मुंह ३१  
धोकर निकल आया और अपने को रोककर कहा भोजन  
परोसो । सो उन्होंने ने उस के लिये तो अलग और भाइयों ३२  
के लिये अलग और जो मिस्री उस के संग खाते थे उन  
के लिये अलग परोसा इसलिये कि मिस्री इत्रियों के साथ  
भोजन नहीं कर सकते बरन मिस्री ऐसा करने से चिन  
भी करते हैं । सो यूसुफ के भाई उस के साम्हने बड़े बड़े ३३  
पहिले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के  
अनुसार क्रम से बैठाये गये, यह देख वे विस्मित होकर  
एक दूसरे की ओर ताकने लगे । तब यूसुफ अपने साम्हने ३४  
से भोजन-वस्तुएं उठा उठाके उन के पास भेजने लगा  
और बिन्यामीन को अपने भाइयों से अधिक पचगुणी  
भोजनवस्तु मिली । और उन्होंने ने उस के संग मन-  
माना पिया ॥

**४४. तब** उस ने अपने घर के अधिकारी को

आशा दी कि इन मनुष्यों के बोरों में  
जितनी भोजनवस्तु समा सके उतनी भर दे और एक  
एक जन के रूपये को उस के बोरों के मोहड़े पर रख दे ।  
और मेरा चान्दी का कटोरा छोटे के बोरों के मोहड़े पर २  
उस के अन्न के रूपये के साथ रख दे । यूसुफ की इस आशा  
के अनुसार उस ने किया । बिहान को भोर होते ही वे ३  
मनुष्य अपने गदहों समेत बिदा किये गये । वे नगर से ४  
निकले ही थे और दूर न जाने पाये थे कि यूसुफ ने  
अपने घर के अधिकारी से कहा उन मनुष्यों का पीछा  
कर और उन को पाकर उन से कह, कि तुम ने भलाई  
की सन्ती बुराई क्यों की है । क्या यह वह वस्तु नहीं जिस ५  
में मेरा स्वामी पीता है और जिस से वह शकुन भी  
बिचारा करता है तुम ने यह जो किया है सो बुरा किया ।  
तब उस ने उन्हें जा लिया और ऐसी ही बातें उन से ६  
कहीं । उन्होंने ने उस से कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें ७  
क्यों कहता है ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे ।

- ८ देख जो रूपैया हमारे बोरों के मोहड़े पर निकला था जब हमने उस को कनान देश से ले आकर तुम्हें फेर दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी ९ वा सोने की वस्तु क्योंकर चुरा सकते हैं। तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए १० और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएं। उस ने कहा तुम्हारा ही कहना सही जिस के पास वह निकले सो मेरा दास होगा और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। ११ इस पर वे फुर्ती से अपने अपने बोरों का उतार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। तब वह दड़ने लगा और बड़े के बोरों से लेकर छोटे के बोरों लों खोज की और कटोरा १३ बिन्यामीन के बोरों में मिला। तब उन्होंने अपने अपने बख फाड़े और अपना अपना गदहा लादकर नगर को १४ लौट गये। तब यहूदा और उस के भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था सो वे उस के साम्हने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उन से कहा तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है क्या तुम न जानते थे कि मुझ सा मनुष्य १६ शकुन बिचार सकता है। यहूदा ने कहा हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएँ परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म का पकड़ लिया है हम और जिस के पास कटोरा निकाला वह भी हम सब के १७ सब अपने प्रभु के दास ही हैं। उस ने कहा ऐसा करना मुझ से दूर रहे जिस जन के पास कटोरा निकला वही मेरा दास होगा और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल ज्ञेय से चले जाओ ॥
- १८ तब यहूदा उस के पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो और तेरा क्रोध तेरे दास पर न भड़के तू तो १९ फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था कि क्या तुम्हारे पिता वा भाई है। और हम ने अपने प्रभु से कहा हाँ हमारे बूढ़ा पिता ताँ है और उस के बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है और उस का भाई मर गया, सो वह अपनी माता का अकेला रह गया और २१ उस का पिता उस से स्नेह रखता है। तब तू ने अपने दासों से कहा था कि उस को मेरे पास ले आओ कि मैं २२ उस को देखूँ। तब हम ने अपने प्रभु से कहा था कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता नहीं तो उस का २३ पिता मर जाएगा। और तू ने अपने दासों से कहा यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख २४ फिर आने न पाओगे। सो अब हम अपने पिता तेरे दास के पास गये तब हम ने उस से अपने प्रभु की बातें कहीं। २५ तब हमारे पिता ने कहा फिर जाकर हमारे लिये थोड़ी सी

भाजनवस्तु मोल ले आओ। हम ने कहा हम नहीं जा सकते हाँ यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे, तब हम जायेंगे क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहे तो हम उस पुरुष के सन्मुख न जाने पाएँगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हम से कहा तुम जो जानते हो कि मेरी स्त्री दो पुत्र जनी। और उन में से एक तो मुझे छोड़ ही गया और मैं ने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा और तब से मैं ने उस का मुँह न देख पाया। सो याद तुम इस को भी मेरी आंख की आंठ ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस पक्के बाल की अवस्था में दुःख के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा<sup>१</sup>। सो जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूँ और यह लड़का संग न रहे तब उस का प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देखके कि लड़का नहीं है वह तुरन्त ही मर जाएगा सो तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो पक्के बालों की अवस्था का है सो शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा<sup>२</sup>। फिर तेरा दास अपने पिता के यहां यह कहके इस लड़के का जामिन हुआ है कि यदि मैं इस को तेरे पास न पहुंचा दूँ तो सदा के लिये तेरा अपराधी ठहरूंगा। सो अब तेरा दास इस लड़के की सन्ती अपने प्रभु का दास होकर रहने पाएँ और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने पाएँ। क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं क्योंकर अपने पिता के पास जा सकूंगा ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जो दुःख पड़ेगा सो मुझे देखना पड़े ॥

४५. तब यूसुफ उन सब के साम्हने जो उस के आस पास खड़े थे, अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा मेरे आस पास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के साम्हने अपने को प्रगट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा और मिस्त्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इस का समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ क्या मेरा पिता अब लों जीता है इस का उत्तर उस के भाई न दे सके क्योंकि वे उस के साम्हने घबरा गये थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ यह सुनकर वे निकट गये फिर उस ने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिस को तुम ने मिस्र आनेहारों के हाथ बेच डाला

(१) मूल में तुम मेरे पक्के बाल अधोलोक में दुःख के साथ उतारोगे।

(२) मूल में तेरे दास हमारे पिता के पक्के बाल शोक के साथ अधोलोक में उतारोगे।

५. या । अब तुम लोग मत पछुताओ और तुम ने जो मुझे  
यहां बैच डाला इस से उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर  
ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिये मुझे आगे से भेज दिया ।
६. क्योंकि अब दो बरस से इस देश में अकाल है और अब  
पांच बरस और ऐसे ही होंगे कि उन में न तो हल  
७. चलेगा और न अन्न काटा जायगा । सो परमेश्वर ने  
मुझे तुम्हारे आगे इसी लिये भेजा कि तुम पृथिवी पर  
बचे रहो और तुम्हारे प्राण बचने से तुम्हारा वंश बढ़े ।
८. इस रीति अब मुझ को यहां पर भेजनेहारे तुम नहीं पर-  
मेश्वर ही ठहरा और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा  
और उस के सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का  
९. प्रभु ठहरा दिया है । सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर  
कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यों कहता है, कि परमेश्वर ने मुझे  
सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, सो तू मेरे पास बिना  
१०. विलम्ब किये चला आ । और तेरा निवास गोशेन देश  
में होगा और तू बेटे पांतां मेड़ बकरियां गाय बैलौं और  
११. अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा । और अकाल के  
जो पांच बरस और होंगे उन में मैं वहीं तेरा पालन  
पोषण करूंगा ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना बरन  
१२. जितने तेरे हैं सो भूखों मरें ? । और तुम अपनी आंखों  
से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों  
से देखता है कि जो हम से बातें कर रहा है सो यूसुफ  
१३. है । और तुम मेरे सब विभव का जो मिस्र में है और  
जो कुछ तुम ने देखा है उस सब का मेरे पिता से बर्खान  
१४. करना और वेग मेरे पिता को यहां ले आना । और वह  
अपने भाई बिन्यामीन के गले में लिपट कर रोया और  
१५. बिन्यामीन भी उस के गले में लिपटकर रोया । तब वह  
अपने सब भाइयों को चूमकर उन से मिलकर रोया और  
इस के पीछे उस के भाई उस से बातें करने लगे ॥
१६. इस बात की चर्चा कि यूसुफ के भाई आये हैं फिरौन  
के भवन तक पहुंच गई और इस से फिरौन और उस के  
१७. कर्मचारी प्रसन्न हुए । सो फिरौन ने यूसुफ से कहा  
अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं  
१८. को लादकर कनान देश में चले जाओ । और अपने पिता  
और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ  
और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं  
तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने  
१९. को मिलेंगे । और तुम्हें आशा मिली है, तुम एक काम  
करो मिस्र देश से अपने बालबच्चों और स्त्रियों के लिये  
२०. गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ । और  
अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सा मिस्र देश

(१) मूल में निर्बन हो जायें ।

में जो कुछ अच्छे से अच्छा है सो तुम्हारा है । और २१  
इसाएल के पुत्रों ने वैसा ही किया । और यूसुफ ने  
फिरौन की मानके उन्हें गाड़ियां दीं और मार्ग के लिये  
सीधा भी दिया । उन में से एक एक जन को तो उस ने २२  
एक एक जोड़ा बख दिया और बिन्यामीन को तीन सौ  
रूपे के टुकड़े और पांच जोड़े बख दिये । और अपने २३  
पिता के पास उस ने जो भेजा वह यह है अर्थात् मिस्र की  
अच्छी वस्तुओं से लदे हुए दस गदहे और अन्न और  
रोटी और उस के पिता के मार्ग के लिये भोजनवस्तु से  
लदी हुई दस गदहियां । और उस ने अपने भाइयों को २४  
विदा किया और वे चल दिये और उस ने उन से कहा  
मार्ग में कहीं भगाड़ा न करना । मिस्र से चल कर वे २५  
कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, और उस  
से यह बर्खान किया कि यूसुफ अब लों जीता है और सारे २६  
मिस्र देश पर प्रभुता बही करता है पर उस ने उन की  
प्रतीति न की और वह अपने आपे में न रहा । तब २७  
उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो  
उस ने उन से कही थीं कह दीं और जब उस ने उन  
गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उस के ले आने के लिये  
भेजीं तब उस का चित्त स्थिर हो गया । और इसाएल २८  
ने कहा बस मेरा पुत्र यूसुफ अब लों जीता है मैं अपनी  
मृत्यु से पहिले जाकर उसको देखूंगा ॥

(याकूब के सारे परिवार समेत मिस्र में बस जाने का बर्खान)

४६. तब इसाएल अपना सब कुछ कूच

करके बेशैबा को गया और वहां अपने  
पिता इसहाक के परमेश्वर का बलिदान चढ़ाये । तब २  
परमेश्वर ने इसाएल से रात के दर्शन में कहा हे याकूब  
हे याकूब उस ने कहा क्या आशा उस ने कहा मैं ईश्वर ३  
तेरे पिता का परमेश्वर हूँ तू मिस्र में जाने से मत डर  
क्योंकि मैं तुझ से वहां एक बड़ी जाति उपजाऊंगा । मैं ४  
तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुम्हें वहां से  
फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी  
आंखों पर लगाएगा । तब याकूब बेशैबा से चला और ५  
इसाएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बालबच्चों  
और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उन के  
ले आने को भेजी थीं चढ़ाकर ले चले । और वे अपनी ६  
मेड़ बकरी गाय बैल और कनान देश में अपने बटोरे  
हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आये । और याकूब ७  
अपने बेटे बेटियों पोते पोतियों निदान अपने वंश भर  
को अपने संग मिस्र में ले आया ॥

याकूब के साथ जो इसाएली अर्थात् उस के बेटे पोते ८

(२) मूल में मुझे देख ।



आदि मिस्र में आये उन के नाम ये हैं याकूब का जेठ  
 ९ तो रुबेन था । और रुबेन के पुत्र इनोक पललू हेसोन  
 १० और कर्मी थे । और शिमोन के पुत्र यमूएल यामीन  
 जोहद याकीन सोहर और एक कनानी स्त्री का जना हुआ  
 ११ शाकल भी था । और लेवी के पुत्र गेशान कहात और  
 १२ मरारी थे । और यहूदा के एर अनान शला परेश और  
 जेरह नाम पुत्र हुए तो ये । पर एर और अनान कनान  
 देश में मर गये थे और परेश के पुत्र हेसोन और हामूल  
 १३ थे । और इसाकार के पुत्र तांला पुन्बा योव और  
 १४ शिमोन थे । और जबलून के पुत्र सेरेद एलोन और यह-  
 १५ लेल थे । लेआ के पुत्र जिन्हें वह याकूब से पहनराम  
 में जनी उन के बेटे पोते ये ही थे और इन से अधिक  
 वह उस की जन्माई एक बेटी दीना को भी जनी यहां लां  
 १६ तो याकूब के सब वंशवाले तैंतीस प्राणी हुए । फिर  
 गाद के पुत्र सियोन हाग्गी शूनी एसयोन एरी अरोदी  
 १७ और अरेली थे । और आशर के पुत्र यिमना यिश्वा यिस्वी  
 और बरीआ ये और उन की बहिन सेरह थीं और बरीआ  
 १८ के पुत्र हेबर और मल्कीएल थे । जिल्या जिसे लावान  
 ने अपनी बेटी लेआ को दिया उस के बेटे पोते आदि  
 ये ही थे सो उस के द्वारा याकूब के सोलह प्राणी जन्मे ॥  
 १९ फिर याकूब की स्त्री राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन  
 २० थे । और मिस्र देश में अनोन के याजक पोतीपेरा की  
 बेटी आसनत के जने यूसुफ के ये पुत्र जन्मे अर्थात्  
 २१ मनश्शे और एप्रैम । और बिन्यामीन के पुत्र बेला बेकेर  
 अश्बेल गेरा नामान एही रोश मुप्पीम हुप्पीम और  
 २२ आद थे । राहेल के पुत्र जिन्हें वह याकूब से जनी  
 उन के ये ही पुत्र थे उस के ये सब बेटे पोते चौदह प्राणी हुए ।  
 २३, २४ फिर दान का पुत्र हूशीम था । और नप्ताली के  
 २५ पुत्र यहसेल गूनी सेसेर और शिलेम थे । अब्हा जिसे  
 लावान ने अपनी बेटी राहेल का दिया उस के बेटे पोते ये  
 ही हैं उस के द्वारा याकूब के वंश में सात प्राणी हुए ।  
 २६ याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आये वे उस  
 की बहुओं का छोड़ सब मिल कर छियासठ प्राणी  
 २७ हुए । और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उस के जन्म से  
 ही प्राणी थे सो याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में  
 आये सो सब मिलकर सत्तर हुए ॥  
 २८ फिर उस ने यहूदा का अपने आगे यूसुफ के  
 पास भेज दिया कि वह उस को गोशेन का भाग दिखाए  
 २९ सो वे गोशेन देश में आये । तब यूसुफ अपना रथ  
 बुतबाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिये  
 गोशेन देश को गया और उस से भेंट करके उस के

(१) मूल में बेटे बेटियां ।

गले में लिपटा और कुछ बेर लों उस के गले में लिपटा  
 हुआ रोता रहा । तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं ३०  
 अब मरने से भी प्रसन्न हूं क्योंकि तुझ जीते जागते का  
 मंह देख चुका । तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और ३१  
 अपने पिता के घराने से कहा मैं जाकर फिरौन को यह  
 कहकर समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के  
 सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे सो  
 मेरे पास आ गये हैं । और वे लोग चरवाहे हैं क्योंकि ३२  
 वे पशुओं को पालते आये हैं सो वे अपनी भेड़ बकरी  
 गाय बैल और जो कुछ उन का है सब ले आये हैं । जब ३३  
 फिरौन तुम को बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है,  
 तो कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज लां ३४  
 पशुओं को पालते आये हैं वरन हमारे पुरखा भी  
 ऐसा ही करते थे । इस से तुम गोशेन देश में रहोगे क्योंकि  
 सब चरवाहों से मिस्री लोग घिन करते हैं ॥

४७. तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह

कहकर समाचार दिया कि मेरा पिता  
 और मेरे भाई और उन की भेड़ बकरियां गाय बैल और  
 जो कुछ उन का है सब कनान देश से आ गया है और  
 अभी तो वे गोशेन देश में हैं । फिर उस ने अपने २  
 भाइयों में से पांच जन लेकर फिरौन के साम्हने खड़े  
 कर दिये । फिरौन ने उस के भाइयों से पूछा कि तुम्हारा ३  
 उद्यम क्या है उन्हों ने फिरौन से कहा तेरे दास चरवाहे  
 हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे । फिर उन्हों ने ४  
 फिरौन से कहा हम इस देश में परदेशी की भांति  
 रहने के लिये आये हैं क्योंकि कनान देश में भारी  
 अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के  
 लिये चराई नहीं रही सो अपने दासों को गोशेन देश  
 में रहने दे । तब फिरौन ने यूसुफ से कहा तेरा पिता ५  
 और तेरे भाई तेरे पास आ गये हैं, और मिस्र देश तें ६  
 साम्हने पड़ा है इस देश का जो सब से अच्छा भाग  
 हो उस में अपने पिता और भाइयों को बसा दे अर्थात्  
 वे गोशेन ही देश में रहें और यदि तू जानता हो कि  
 उन में से पारश्रमी पुरुष हैं तो उन्हें मेरे पशुओं के अचि-  
 कारी ठहरा दे । तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ७  
 ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब  
 ने फिरौन को आशीर्वाद दिया । तब फिरौन ने याकूब  
 से पूछा तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है । याकूब  
 ने फिरौन से कहा मैं तो एक सौ तीस बरस परदेशी  
 होकर अपना जीवन बिता चुका हूं मेरे जीवन के दिन  
 थोड़े और दुःख से भरे हुए भी थे और मेरे बापदादे  
 परदेशी होकर जितने दिन लों जीते रहे उतने दिन का

- १० मैं अभी नहीं हुआ । और याकूब फिरौन को आशीर्वाद  
 ११ देकर उस के सम्मुख से चला गया । तब यूसुफ ने  
 अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन  
 की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे  
 भाग में अर्थात् रामसेस नाम देश में भूमि देकर उन की  
 १२ निज कर दी । और यूसुफ अपने पिता का और अपने  
 भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के  
 बालबच्चों के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला  
 दिलाकर उन का पालन पोषण करने लगा ।  
 १३ और उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा क्योंकि  
 अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्र  
 १४ और कनान दोनों देश अत्यन्त हार गये । और जितना  
 रूपया मिस्र और कनान देश में था सब को यूसुफ ने  
 उस अन्न की सन्ती जो उन के निवासी मोल लेते थे  
 १५ इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुँचा दिया । सो  
 जब मिस्र और कनान देश का रूपया चुक गया तब सब  
 मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे हम को भोजन  
 वस्तु दे, क्या हम रूपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर  
 १६ जाएं । यूसुफ ने कहा जो रूपये न हों तो अपने पशु  
 दे दो और मैं उन की सन्ती तुम्हें खाने को दूंगा ।  
 १७ तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आये और यूसुफ  
 उन को छोड़ा भेड़ बकारियों गाय बैलों और गदहों की  
 सन्ती खाने को देने लगा, सो उस बरस में वह सब  
 जात के पशुओं की सन्ती भोजन देकर उन का पालन  
 १८ पोषण करता रहा । वह बरस तो यों कटा तब अगले  
 बरस में उन्होंने उस के पास आकर कहा हम अपने  
 प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रूपया चुक  
 गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के  
 पास आ चुके हैं सो अब हमारे प्रभु के साम्हने हमारे  
 १९ शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा । हम तेरे  
 देखते क्यों मरें और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाये हम  
 को और हमारी भूमि को भोजनवस्तु की सन्ती मोल  
 ले कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हों और  
 हम को बीज दे कि हम मरने न पाएँ जीते रहें और  
 २० भूमि न उजड़े । तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को  
 फिरौन के लिये मोल लिया क्योंकि उस कठिन अकाल के  
 पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना  
 २१ पड़ा सो सारी भूमि फिरौन की हो गई । और एक सिवाने  
 से लेकर दूसरे सिवाने लों सारे मिस्र देश में जो प्रजा  
 रहती थी उस को उस ने नगरों में ले आकर बसा दिया ।  
 २२ पर याजकों की भूमि तो उस ने न मोल ली क्योंकि

(१) मूल में हम और हमारी भूमि क्यों मरें ।

याजकों के लिये फिरौन की ओर से नित्य भोजन का  
 बन्दोबस्त था और जो नित्य भोजन फिरौन उन को देता  
 था वही वे खाते थे, इस कारण उन को अपनी भूमि  
 बेचनी न पड़ी । तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा २३  
 सुनो मैं ने आज के दिन तुम को और तुम्हारी भूमि को  
 भी फिरौन के लिये मोल लिया है देखो तुम्हारे लिये  
 यहाँ बीज है इसे भूमि में बोओ । और जो कुछ उपजे २४  
 उस का पंचमांश फिरौन को देना बाकी चार अंश तुम्हारे  
 रहेंगे कि तुम उसे अपने खेतों में बोओ और अपने अपने  
 बालबच्चों और घर के और लोगों समेत खाया करो ।  
 उन्होंने ने कहा तू ने हम को जिलाय लिया है हमारे प्रभु २५  
 की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फिरौन के  
 दास होकर रहेंगे । सो यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय २६  
 में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन लों चला आता  
 है कि पंचमांश फिरौन को मिला करे केवल याजकों ही  
 की भूमि फिरौन की नहीं हो गई । और इस्राएली मिस्र २७  
 के गोशेन देश में रहने लगे और उस में की भूमि निज  
 कर लेने लगे और फूले फले और अत्यन्त बढ़ गये ॥

[ इस्राएल के आशीर्वादों और मृत्यु का वर्णन ]

मिस्र देश में याकूब सतरह बरस जीता रहा सो याकूब २८  
 की सारी आयु एक सौ सैंतालीस बरस की हुई । जब २९  
 इस्राएल के मरने का दिन निकट आ गया तब उस ने  
 अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा यदि तेरा अनुग्रह  
 मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जाँघ के तले रखकर  
 किरिया खा कि मैं तेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम  
 करूँगा कि तुझे मिस्र में मिट्टी न दूँगा । जब तू अपने ३०  
 वापदादों के संग सो जाएगा तब मैं तुझे मिस्र से उठा  
 ले जाकर उन्हीं के कबरिस्तान में रखूँगा, तब यूसुफ ने  
 कहा मैं तेरे बचन के अनुसार करूँगा । फिर उस ने कहा ३१  
 मुझ से किरिया खा सो उस ने उस से किरिया खाई, तब  
 इस्राएल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाया ॥

४८. इन बातों के पीछे किसी ने यूसुफ से कहा

सुन तेरा पिता बीमार है तब वह मनशरी  
 और एप्रैम नाम अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उस के  
 पास चला । और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा २  
 पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है तब इस्राएल अपने को  
 सम्भालकर खाट पर बैठ गया । और याकूब ने यूसुफ से ३  
 कहा सर्वशक्तिमान् ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के  
 पास मुझे दर्शन देकर आशिष दी, और कहा सुन मैं तुझे ४  
 फुला फलाकर बढ़ाऊँगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली  
 का मूक बनाऊँगा और तेरे पीछे तेरे वंश को यह देश  
 ऐसा दूँगा कि वह सदा लों उस की निज भूमि रहेगी ।

- ५ और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहिले जन्मे सो मेरे ही ठहरेंगे अर्थात् जिस रीति रुबेन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति एप्रैम और मनश्शे भी मेरे
- ६ ठहरेंगे । और उन के पीछे जो सन्तान तू जन्माएगा वह तेरे तो ठहरेंगे पर भाग पाने के समय वे अपने भाइयों
- ७ ही के वंश में गिने जावेंगे । जब मैं पदान से आता था तब एप्रैमता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहिले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे साम्हने मर गई और मैं ने उसे वहीं अर्थात् एप्रैमता जो बेतलेहेम भी कहावता है
- ८ उसी के मार्ग में मिट्टी दी । तब इस्राएल को यूसुफ के
- ९ पुत्र देख पड़े और उस ने पूछा ये कौन हैं । यूसुफ ने अपने पिता से कहा ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहां दिये हैं उस ने कहा उन को मेरे पास ले आ कि मैं
- १० उन्हें आशीर्वाद दूं । इस्राएल की आंखें पुढापे के कारण धुन्धली हो गई थीं यहां लो कि उसे कम सुकता था सो यूसुफ उन्हें उस के पास ले गया और उस ने उन्हें चूम
- ११ कर गले लगा लिया । तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा मैं सोचता न था कि तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा पर देख परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है ।
- १२ तब यूसुफ ने उन्हें अपने ट्टनों के बीच से हटाकर और
- १३ अपने मुंह के बल भूमि पर गिरके दण्डवत् की । तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात् एप्रैम को अपने दहिने हाथ से कि वह इस्राएल के बाए हाथ पड़े और मनश्शे को अपने बाए हाथ से कि इस्राएल के दहिने
- १४ हाथ पड़े, उन्हें उस के पास ले गया । तब इस्राएल ने अपना दहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो लहुरा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया उस ने तो जान बूझकर ऐसा किया नहीं तो
- १५ जेठ मनश्शे ही था । फिर उस ने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिस के एन्मुख मेरे बापदादे इब्राहीम और इसहाक अपने को जानकर चलते थे और वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन लो मेरा
- १६ चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है वही अब इन लड़कों को आशिष दे और ये मेरे और मेरे बापदादे इब्राहीम और इसहाक के
- १७ कहलाएं और पृथिवी में बहुतायत से बढ़ें । जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रक्त्वा है तब यह बात उस को बुरी लगी सो उस ने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे ।

(१) मूल में भाइयों के नाम पर कहायेंगे । (२) अर्थात् पहनराज ।  
(३) मूल में जिसके साम्हने मेरे बापदादे इब्राहीम और इसहाक ।

और यूसुफ ने अपने पिता से कहा हे पिता ऐस्य नहीं १८  
क्योंकि जेठ यही है अपना दहिना हाथ इस के सिर पर  
रख । उस के पिता ने नकारके कहा हे पुत्र मैं इस बात १९  
को भली भांति जानता हूं यद्यपि इस से भी मनुष्यों की  
एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान् हो जाएगा  
तोभी इस का छोटा भाई इस से अधिक महान् हो  
जाएगा और उस के वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी ।  
फिर उस ने उसी दिन यह कहकर उन को आशीर्वाद २०  
दिया कि इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशी-  
वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे  
के समान बना दे और उस ने मनश्शे से पहिले एप्रैम  
का नाम लिया । तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा देख मैं २१  
तो मरता हूं परन्तु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और  
तुम को तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा । और २२  
मैं तुम्हें वहाँ तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग  
देता हूं जिस को मैं ने एमीरियों के हाथ से अपनी तल-  
वार और धनुष के बल से ले लिया है ॥

४९. फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर  
बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ मैं तुम  
को बताऊंगा कि अन्त के दिनों में तुम पर क्या क्या  
बीतेगा । हे याकूब के पुत्रों इकट्ठे होकर सुनो अपने २  
पिता इस्राएल की आंखें कान लगाओ ।

हे रुबेन तू मेरा जेठ मेरा बल और मेरे पीरुष का ३  
पहिला फल है,

प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम  
भाग तू ही है ।

तू जो जल की नाइ उबलनेहारा है इस लिये औरों ४  
से श्रेष्ठ न ठहरेगा,

क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा,  
तब तू ने उस को अशुद्ध किया वह मेरे बिल्लीने पर  
चढ़ गया ॥

शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं,  
उनकी तलवारों उपद्रव के हाथियार हैं । ५

हे मेरे जीव उन के मर्म में न पड़,  
हे मेरी महिमा उन की सभा में मत मिल ६

क्योंकि उन्होंने ने कोप से मनुष्यों को घात किया  
और अपनी ही इच्छा पर चल कर बैलों की लंब  
काटी है ॥

धक्कार उन के कोप को जो प्रचण्ड था,  
और उन के रोष को जो निर्दय था मैं उन्हें याकूब  
में अलग अलग ७

और इस्राएल में उत्तर बिस्तर कर दूंगा ॥

- ८ हे यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे,  
तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा  
तेरे पिता के पुत्र तुझे दण्डवत् करेंगे ॥
- ९ यहूदा सिंह का डायक है ।  
हे मेरे पुत्र तू अहेर करके गुफा में गया है<sup>१</sup>  
वह सिंह वा सिंहनी की नाई दबकर बैठ गया  
फिर कौन उस को छेड़ेगा ॥
- १० जब लौ शीलो न आए  
तब लौ न तो यहूदा से राजदण्ड छूटेगा,  
न उस के बंश से<sup>२</sup> व्यवस्था देनेहारा अलग होगा  
और राज्य राज्य के लोग उस के अधीन हो जाएंगे ॥
- ११ वह अपने खान गदहे को दाखलता में  
और अपनी गदही के बच्चे को उत्तम जाति की दाख-  
लता में बान्धा करेगा,  
उस ने अपने बरु दाखमधु में  
और अपना गहरावा दाखों के रस<sup>३</sup> में घोसा है ॥
- १२ उस की आँखें दाखमधु से चमकीली  
और उस के दाँत दूध से श्वेत होंगे ॥
- १३ जम्बूलन समुद्र के तीर पर बास करेगा यह जहाजों के  
लिये बन्दर का काम देगा  
और उस का परला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा ॥
- १४ इस्साकार एक बड़ा और बलवन्त गदहा है  
जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है ॥
- १५ उस ने एक विश्रामस्थान देखकर कि अच्छा है और एक  
देश कि मनोहर है  
अपने कन्धे को बोक उठाने के लिये भुकाया  
और बेगारी में दास का सा काम करने लगा ॥
- १६ दान इस्साएल का एक गोत्र होकर  
अपने जातिभाइयों का न्याय करेगा ॥
- १७ दान मार्ग में का एक साँप  
और रास्ते में का एक नाग होगा,  
जो बोड़े की नली को डंसता है,  
जिस से उस का सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है ॥
- १८ हे यहोबा मैं तुम्हीं से उदार पाने की बात जोहता  
आया हूँ ॥
- १९ गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा  
पर वह उसी दल की पिछाड़ी पर छापा मारेगा ॥
- २० आशर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा  
और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा ॥
- २१ नताली एक लूटी हुई हरिणी है

(१) मूल में अहेर से बद गया है ।

(२) मूल में उस के पैरों के बीच से । (३) मूल में लोह ।

- वह सुन्दर बातें बोलता है ॥  
यूसुफ बलवन्त लता की एक शाखा<sup>४</sup> है २२  
वह सोते के पास लगी हुई फलवन्त लता की एक  
शाखा<sup>४</sup> है  
उस की डालियाँ भीत पर से चढ़कर गल जाती  
हैं । धनुर्धारियों ने उस को खोदित किया, २३  
और उस पर तीर मारे और उस के पीछे पड़े हैं ॥  
पर उस का धनुष टूट रहा २४  
और उस की बांह और हाथ  
याकून के उसी गकिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा  
फुर्तिले हुए,  
जिस के पास से वह चरवाहा आएगा जो इस्साएल  
का पत्थर भी ठहरेगा ॥  
यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी २५  
सहायता करेगा,  
उस सर्वशक्तिमान का जो तुम्हें  
ऊपर से आकाश में की आशिषें,  
और नीचे से गहरे जल में की आशिषें,  
और स्तनों और गर्भ की आशिषें देगा ॥  
तेरे पिता के आशीर्वाद, २६  
मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गये हैं  
और सनातन महाइयों की मनचाही वस्तुओं की  
नाह बने रहेंगे,  
ये यूसुफ के सिर पर  
जो अपने भाइयों में से न्यारा हुआ उसी के चोखे  
पर फलेंगे ॥  
बिन्यामीन फाड़नेहारा हुयडार है,  
सबेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा,  
और सांभ के लूट बांट लेगा ॥  
इस्साएल के बारहों गोत्र ये ही हैं और उन के पिता २७  
ने जिस जिस वचन से उन को आशीर्वाद दिया सो ये ही  
हैं एक एक को उस के आशीर्वाद के अनुसार उस ने  
आशीर्वाद दिया । तब उस ने यह कहकर उन को आशा २९  
दी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ सो तुम्हें  
हत्ती एग्रोन की भूमिवाली गुफा में मेरे बाप दाखों के  
साथ मिट्टी देना, अर्थात् उसी गुफा में जो कनान ३०  
देश में मन्ने के सम्हनेवाली मकपेला की भूमि में है  
उस भूमि को तो इब्राहीम ने हत्ती एग्रोन के हाथ से  
इसी निमित्त मोल लिया था कि वह कबरिस्तान के लिये  
उस की निज भूमि हो । वहां इब्राहीम और उस की स्त्री ३१  
सारा को मिट्टी दी गई और वहीं इस्साक और उस की

(४) मूल में पुत्र । (५) मूल में बंधियाँ ।

की रिबका को भी मिट्टी दी गई और वहीं मैं ने लेआ  
 १२ को भी मिट्टी दी । वह भूमि और उस में की गुफा  
 १३ हिलियों के हाथ से मोल ली गई । यह आज्ञा जब  
 याकूब अपने पुत्रों को दे चुका तब अपने पाँच खाट पर  
 १ समेत प्राण छोड़कर अपने लोगों में जा मिला । तब  
 २ युसुफ अपने पिता के मुँह पर गिरके रोया  
 ३ और उसे चूमा । और युसुफ ने उन वैश्यों  
 ४ को जो उस के सेवक थे आज्ञा दी कि मेरे पिता की लोथ  
 में सुगन्धद्रव्य भरों सो वैश्यों ने इस्राएल की लोथ में  
 ५ सुगन्धद्रव्य भर दिये । और उस के चालीस दिन पूरे हुए  
 क्योंकि जिन की लोथ में सुगन्धद्रव्य भरे जाते हैं उन को  
 इतने ही दिन पूरे लगते हैं । और किसी लोग उस के  
 लिये सत्तर दिन लो रोते रहे ॥

४ जब उस के बिलाप के दिन बीत गये तब युसुफ  
 फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा यदि तुम्हारी  
 अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह बिनती फिरौन  
 ५ को सुनाओ कि, मेरे पिता ने यह कहकर कि देख मैं  
 मरा चाहता हूँ मुझे यह किरिया खिलाई कि जो कबर  
 तु ने अपने लिये कनान देश में खुदवाई है उसी में मैं  
 ६ तुम्हें मिट्टी दूंगा सो अब मुझे वहाँ जाकर अपने पिता को  
 मिट्टी देने की आज्ञा दे, पीछे मैं लौट आऊंगा । तब  
 फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई  
 ७ किरिया के अनुसार उस को मिट्टी दे । सो युसुफ अपने  
 पिता को मिट्टी देने के लिये चला और फिरौन के सब  
 कर्मचारी अर्थात् उस के भवन के पुरनिये और मिस्र देश  
 ८ के सब पुरनिये उस के संग चले । और युसुफ के घर के  
 सब लोग और उस के भाई और उस के पिता के घर के  
 सब लोग भी संग गये पर वे अपने बालबच्चों और मेड़  
 बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गये ।  
 ९ और उस के संग रथ और सवार गये, सो भीड़ बहुत भारी  
 १० हो गई । जब वे आताद के खलिहान लो जो यर्दन नदी  
 के पार हैं पहुँचे तब वहाँ अत्यन्त भारी बिलाप किया  
 और युसुफ ने अपने पिता के लिये सात दिन का बिलाप  
 ११ कराया । आताद के खलिहान में के बिलाप को देखकर  
 उस देश के निवासी कनानियों ने कहा यह तो मिस्रियों  
 का कोई भारी बिलाप होगा इसी कारण उस स्थान का  
 नाम आवेलमिस्र म' पड़ा और वह यर्दन के पार है ।  
 १२ और इस्राएल के पुत्रों ने उस से वही काम किया जिस  
 १३ की उस ने उन को आज्ञा दी थी । अर्थात् उन्होंने ने उस  
 को कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमिवाली  
 गुफा में जो मझे के साम्हने है मिट्टी दी जिस को

(१) आताद मिस्रियों का बिलाप ।

इब्राहीम ने हिली एप्रोन के हाथ से इस निश्चित मोल  
 लिया था कि वह कबरिस्तान के लिये उस की निज  
 भूमि हो ॥

(यूसुफ का उत्तर चरित)

अपने पिता को मिट्टी देकर युसुफ अपने भाइयों १४  
 और उन सब समेत जो उस के पिता को मिट्टी देने के  
 लिये उस के संग गये वे मिस्र में लौट आया । जब युसुफ १५  
 के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया तब कहने  
 लगे क्या जानिये युसुफ अब हमारे पीछे पड़े और बिनती  
 बुराई हम ने उस से की थी सब का पूरा पलटा हम से  
 ले । सो उन्होंने युसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे १६  
 पिता ने मरने से पहिले हमें यह आज्ञा दी थी कि, तुम १७  
 लोग युसुफ से यों कहना कि हम बिनती करते हैं कि तू  
 अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर हम ने  
 तुझ से बुराई तो की थी पर अब अपने पिता के  
 परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर । उन की ये  
 बातें सुनकर युसुफ रो दिया । और उस के भाई आप भी १८  
 जाकर उस के साम्हने गिर पड़े और कहा देख हम तेरे  
 दास हैं । युसुफ ने उन से कहा मत डरो क्या मैं १९  
 परमेश्वर की जगह पर हूँ । यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिये २०  
 बुराई का विचार किया था परन्तु परमेश्वर ने उसी बात  
 में भलाई का विचार किया जिस से वह ऐसा करे जैसा  
 आज के दिन प्रगट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे  
 हैं । सो अब मत डरो मैं तुम्हारा और तुम्हारे बालबच्चों २१  
 का पालन पोषण करता रहूँगा यों उस ने उन को  
 समझा बुझाकर शान्त दी ॥

और युसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में २२  
 रहता रहा और युसुफ एक सौ दस बरस जीता रहा ।  
 और युसुफ एप्रैम के परपोता लो देखने पाया और २३  
 मनश्शे के पोते जां माकीर के पुत्र थे सो उत्पन्न होकर  
 युसुफ से गाँद में लिये गये । और युसुफ ने अपने २४  
 भाइयों से कहा मैं तो मरा चाहता हूँ परन्तु परमेश्वर  
 निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से  
 निकाल कर उस देश में पहुँचा देगा, जिस के देने की  
 उस ने इब्राहीम इसहाक और याकूब से किरिया खाई  
 थी । फिर युसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर २५  
 निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा उन को इस विषय का  
 किरिया खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में  
 ले जाएंगे । निदान युसुफ एक सौ दस बरस का होकर २६  
 मर गया और उस की लोथ में सुगन्धद्रव्य भरे गये और  
 वह लोथ मिस्र में एक संवूक में रक्खी गई ॥

(२) मूल में युसुफ के पुत्रों पर जम्मे ।

# निर्गमन नाम पुस्तक ।

(मिस्र से इस्त्रायेलियों की बुर्दरा)

## १. याकूब के साथ उस के जो पुत्र अपने

अपने घराने को लेकर मिस्र देश  
२ में आये उन के नाम ये हैं अर्थात्, रुबेन शिमोन लेवी  
३,४ यहुदा, इस्साकार अबूलून बिन्यामीन, दान नताली गाद  
५ और आशेर । और यूसुफ तां मिस्र में पहिले ही आ चुका  
६ था । याकूब के निज वंश के सब प्राणी सत्तर थे । और  
यूसुफ और उस के सब भाई और उस पीढ़ी के सारे लोग  
७ मर गये । और इस्त्रायेली फूले फले और बहुत अधिक  
होकर बढ़ गये और अत्यन्त सामर्थी हुए और देश उन  
से भर गया ॥

८ मिस्र में एक नया राजा हुआ जो यूसुफ को न  
९ जानता था । उस ने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्त्रायेली  
१० हम से गिनती और सामर्थ्य में अधिक हो गये हैं । सो  
आओ हम उन के साथ चतुराई का बर्ताव करें  
ऐसा न हो कि जब वे बहुत हो जाएं तब यदि संग्राम  
आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिल कर हम से लड़ें  
११ और इस देश से निकल जाएं । सो उन्होंने ने उन पर  
बेगारी करानेहारों को ठहराया जो उन पर भार डाल  
डालकर उन को दुःख दिया करें, सो उन्होंने ने फिरौन के  
लिये पितोम और रामसेस नाम भंडारवाले नगरों को  
१२ बनाया । पर ज्यों ज्यों वे उन को दुःख देते गये त्यों त्यों  
वे बढ़ते और फैलते गये, सो वे इस्त्रायेलियों से डर गये ।  
१३ और मिस्रियों ने इस्त्रायेलियों से कठोरता के साथ  
१४ सेवा कराई । और उन के जीवन को गारे ईंट और खेती  
के भाँति भाँति के काम की कठिन सेवा से भार सा  
कर डाला जिस किसी काम में वे उन से सेवा कराते  
उस में कठोरता के साथ कराते थे ॥

१५ शिमा और पूष्पा नाम दो इब्री जनाई धाइयों को  
१६ मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि, जब जब तुम इब्री स्त्रियों  
को जनने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो तब  
यदि बेठा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो  
१७ जीती रहने देना । पर वे धाइया परमेश्वर का भय  
मानती थीं सो मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर  
१८ लड़कों को भी जीते छोड़ देती थीं । तब मिस्र के राजा ने

(१) मूल में कह बा ।

उन को बुलवाकर पूछा तुम जो लड़कों को जीते छोड़ देती  
हो सो ऐसा क्यों करती हो । जनाई धाइयों ने फिरौन को १९  
उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं  
वे ऐसी फुर्तीली हैं कि जनाई धाइयों के पहुँचने से  
पहिले ही जन बैठती हैं । सो परमेश्वर ने जनाई २०  
धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत  
सामर्थी हुए । और जनाई धाइयां जो परमेश्वर का भय २१  
मानती थीं इस कारण उस ने उन के घर बसाये २ । तब २२  
फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी  
कि इम्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सबों को तुम नील  
नदी ३ में डालना और सब बेटियों को जीती छोड़ना ॥

(मूसा की उत्पत्ति और आदि चरित्र)

## २. लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी

वंशिन को ग्याह लिया । और वह २  
स्त्री गर्भिणी होकर बेटा जनी और यह देखकर कि  
यह बालक सुन्दर है उसे तीन महोने लों छिपाकर रखा ।  
जब वह उसे और छिपा न सकी तब उस के लिये सरकंडों ३  
की एक पिटारी ले उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगा  
कर उस में बालक को रखकर नील नदी ४ के तीर पर  
कांसों के बीच छोड़ भाई । उस बालक की बहिन दूर खड़ी ५  
रही कि देखे इसे क्या होगा । तब फिरौन की बेटी नहाने ५  
के लिये नदी ४ के तीर आई और उस की सखियां नदी ४ के  
तीर तीर टहलने लगीं तब उस ने कांसों के बीच पिटारी  
को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिये भेजा ।  
तब उस ने उसे खोलकर देखा कि एक रंता हुआ बालक ६  
है तब उसे तरस भाई और उस ने कहा यह तो किसी  
इब्री का बालक होगा । तब बालक की बहिन ने ७  
फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से  
किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊँ जो तेरे लिये  
बालक को दूध पिलाया करे । फिरौन की बेटी ने कहा ८  
जा तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले  
आई । फिरौन की बेटी ने उस से कहा, तू इस बालक ९  
को ले जाकर मेरे लिये दूध पिलाया कर और मैं तुझे  
मजूरी दूँगी तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध  
पिलाने लगी । जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे १०

(२) मूल में उन के लिये घर बनाये । (३) मूल में बोर ।

फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उस का बेटा  
उहरा और उस ने यह कहकर उस का नाम मूसा रखवा  
कि मैं ने इस को जल से निकाल लिया ॥

- ११ इतने में मूसा बड़ा हुआ और बाहर अपने भाई  
बंधुओं के पास जाकर उन के भारों पर दृष्टि करने  
लगा । और उस ने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे  
१२ एक इब्री भाई को मार रहा है । सो जब उस ने इधर  
उधर देखा कि कोई नहीं है तब उस मिस्री को मार  
डालकर बालू में छिपा दिया ॥
- १३ फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उस ने देखा कि दो  
इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं सो उस ने  
अपराधी से कहा तू अपने भाई को क्यों मारता है ।  
१४ उस ने कहा किस ने तुझे हम लोगों पर हाकिम और  
न्यायी ठहराया जिस भांति तू ने मिस्री को घात किया  
क्या उसी भांति मुझे भी घात करना चाहता है । तब  
मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय वह बात खुल  
१५ गई है । जब फिरौन ने वह बात सुनी तब मूसा को  
घात कराने का यत्न किया तब मूसा फिरौन के साम्हने  
से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा । और  
१६ वह वहां एक कूप के पास बैठा था । मिद्यान याजक के  
सात बेटियां थीं और वे वहां आकर जल भरने लगीं  
कि कौतों में भरके अपने पिता की भेड़बकरियों को  
१७ पिलाएँ । तब चरवाहे आकर उन को दुदुराने लगे  
तब मूसा ने खड़ा होकर उन की सहायता की  
१८ और भेड़बकरियों को पानी पिलाया । सो जब वे  
अपने पिता रूपल के पास फिर आई तब उस  
ने उन से पूछा क्या कारण है कि आज तुम ऐसी  
१९ फुर्ती से आई हो । उन्होंने ने कहा एक मिस्री पुरुष  
ने हम को चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिये  
२० बहुत जल भरके भेड़बकरियों को पिलाया । तब उस ने  
अपनी बेटियां से कहा, वह पुरुष कहाँ है तुम उस को  
क्यों छोड़ आई हो, उस को बुला ले आओ कि यह  
२१ भोजन करे । और मूसा उस पुरुष के साथ रहने का  
प्रसन्न हुआ और उस ने उसे अपनी बेटी संपोरा को  
२२ ब्याह दिया । और वह बेटा जनी तब मूसा ने यह  
कहकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ उस का नाम  
गेरौम<sup>२</sup> रखवा ॥

(यहोका के मूसा को दरान देकर फिरौन के पास भोजने का वर्णन)

- २३ बहुत दिन बीतने पर मिस्र का राजा मर गया  
और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लम्बी लम्बी सांस  
(१) अर्थात् जल से निकाला हुआ । (२) अर्थात् वहां परदेशी, या,  
निकाल दिया जाना ।

लेने लगे और पुकार उठे और उन की दोहाई जो कठिन  
सेवा के कारण हुई सो परमेश्वर लों पहुंची । और २४  
परमेश्वर ने उन का कराहना सुनकर अपनी बाबा जो  
उस ने इब्राहीम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी  
थी उस की सुधि ली । और परमेश्वर ने इस्राएलियों २५  
पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया ॥

### ३. मूसा अपने ससुर यित्रों नाम मिद्यान के याजक

की भेड़बकरियों को चराता था और वह  
उन्हें जंगल की परली ओर हारेब नाम परमेश्वर के  
पर्वत के पास ले गया । और परमेश्वर के दूत ने २  
एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उस को  
दर्शन दिया और उस ने दृष्टि करके देखा कि झाड़ी जल  
रही है पर भस्म नहीं होती । तब मूसा ने सोचा कि ३  
मैं उधर फिरके इस बड़े अचंचे को देखूंगा कि वह झाड़ी  
क्यों नहीं जल जाती । जब यहोवा ने देखा कि मूसा ४  
देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने झाड़ी  
के बीच से उस को पुकारा कि हे मूसा हे मूसा, मूसा ने  
कहा क्या आशा । उस ने कहा इधर पास मत आ और ५  
अपने पांवों से जूतियों को उतार दे क्योंकि जिस स्थान  
पर तू खड़ा है सो पवित्र भूमि है । फिर उस ने कहा मैं ६  
तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहीम का परमेश्वर इस-  
हाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं, तब  
मूसा जो परमेश्वर की आंख निहारने से डरता था सो  
उस ने अपना मुंह ढांप लिया । फिर यहोवा ने कहा मैं ७  
ने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उन के दुःख को  
निश्चय देखा है और उन की जो चिल्लाहट परिभ्रम कराने-  
हारों के कारण होती है उस को भी मैं ने सुना है और  
उन की पीड़ा पर मैं ने चित्त लगाया है । सो अब मैं ८  
उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और  
उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में  
जिस में दूध और मधु की धारा बहती हैं अर्थात् कनानी,  
हिर्ती, एमारी, परिब्जी, हिब्वी और यबूसी लोगों के स्थान  
में पहुंचाऊं । सो अब सुन इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे ९  
सुन पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अघोर करना मुझे  
देख पड़ा है । सो आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता १०  
हूं, कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले  
आए । तब मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूं जो ११  
फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से  
निकाल ले आऊं । उस ने कहा निश्चय मैं तेरे संग १२  
रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजनेवाला मैं हूं तेरे

(३) मूल में मुझे देख ।

लिये यह चिन्ह ठहरेगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाला चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उन से यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वे मुझ से पूछें कि उस का क्या नाम है तब मैं उन को क्या बताऊँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँगा सो हूँगा। फिर उस ने कहा तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिस का नाम हूँगा है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से यों कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात् इब्राहीम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझ को तुम्हारे पास भेजा है, देख सदा लों मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उन से कह कि तुम्हारे पितर इब्राहीम इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैं ने तुम पर और तुम से जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चिन्त लगाया है। और मैं ने ठाना है कि तुम को मिस्र के दुःख में से निकाल कर कनानी, हिती, एमोरी, परिजी, हिन्वी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा जो ऐसा देश है कि उस में दूध और मधु की धारा बहती हैं। तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरनियों को संग ले मिस्र के राजा के पास जाकर उस से यों कहना कि इजिप्त् के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है सो अब हम को तीन दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुम को जाने न देगा वरन बड़े बल से दबाये जाने पर भी जाने न देगा। सो मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्यकर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूँगा और उस के पीछे वह तुम का अपने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करसूँगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे। वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पक्षोत्सिन और अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चान्दी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहिराना सो तुम मिस्रियों को

(१) कितने टीकाकार कहते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ। (२) कितने टीकाकार कहते हैं मैं हूँ।

लूटोगे। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुम्हें दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उस से कहा तेरे हाथ में वह क्या है वह बोला लाठी। उस ने कहा उसे भूमि पर डाल दे, जब उस ने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उस के साम्हने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उस की पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात् इब्राहीम के परमेश्वर इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दर्शन दिया है। जब उस ने हाथ बढ़ाकर उस को पकड़ा तब वह उस के हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उस से यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर टांप, सो उन से अपना हाथ छाती पर रखकर टांपा, फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि मेरा हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। तब उस ने कहा अपना हाथ छाती पर फिर रखकर टांप सो उस ने अपना हाथ छाती पर रखकर टांपा और जब उस ने उस को छाती पर से निकाला तो क्या देखा कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करें और पहिले चिन्ह को न मानें, तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति न करें और तेरी बात को न मानें तो तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना और जो जल तू नदी से निकालेगा सो सूखी भूमि पर लोहू बन जायगा। मूसा ने यहोवा से कहा मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहिले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मूढ़ और जीम का भद्दा हूँ। यहोवा ने उस से कहा मनुष्य का मुंह किस ने बनाया है और मनुष्य को गूंगा वा बहिरा वा देखनेहारा वा अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुम्हें कहना होगा वह तुम्हें सिखाता जाऊँगा। उस ने कहा हे मेरे प्रभु जिस को तू चाहे उसी के हाथ से मेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उस ने कहा क्या तेरा भाई लेवीय हाकरन नहीं है मुझे तो निश्चय है कि वह कहने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिये निकला आता भी है और तुम्हें देखकर मन में आनन्दित होगा। सो तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उस के मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा

(३) मूल में पार। (४) मूल में उस से बातें करना और उस के मुंह में वे बातें डालना।



१६ सो नुभ को सिखाता जाऊंगा । और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा वह तेरे लिये मंह और तू उस  
१७ के लिये परमेश्वर उदरेगा । और तू इस लाठी को हाथ में लिये जा और ईसा से इन चिन्हों को दिखाना ॥

१८ तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और कहा मुझे बिदा कर कि मैं मिस्र में रहनेहारे अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब लों जीते हैं वा नहीं; यित्रो ने  
१९ कहा कुशल से जा । और यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से कहा मिस्र को लौट जा क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के  
२० ग्राहक थे सो सब मर गये हैं । तब मूसा अपनी स्त्री और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर  
२१ की उस लाठी को हाथ में लिये हुए लौटा । और यहोवा ने मूसा से कहा जब तू मिस्र में पहुँचेगा तो सचेत होना कि जो चमत्कार मैं ने तेरे वश में किये हैं उन सभी को फिरौन के देखते करना, पर मैं उस के मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा ।  
२२ और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यां कहता है, कि  
२३ इस्राएल मेरा पुत्र बरन मेरा जेठा है । और मैं जो तुझ से कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे और तू ने जो अब लों उसे जाने देने का नकारा है इस कारण मैं अब तेरे पुत्र बरन तेरे जेठे का घात  
२४ करूंगा । मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा । तब सिप्पोरा ने चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पाँवों पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू लोह  
२६ बहानेहारा मेरा पति है । तब उस ने उस को छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लोह बहानेहारा पति है ॥

(मूसा के इस्राएलियों और फिरौन में भेंट करने का बर्णन)

२७ तब यहोवा ने हारून से कहा मूसा की भेंट करने का जंगल में जा सो वह जाकर परमेश्वर के पर्वत पर उस से  
२८ मिला और उस को चूमा । तब मूसा ने हारून को बताया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर मुझ को भेजा है और कौन कौन चिन्ह दिखाने की आज्ञा मुझे दी है ।  
२९ सो मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुर-  
३० नियों को इकट्ठा किया । और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थीं सो सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के  
३१ साम्हने वे चिन्ह भी दिखाये । और लोगों ने उन की प्रतीति की और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और हमारे दुःख पर दृष्टि की है उन्होंने ने  
१५ सिर झुकाकर दण्डवत् की । इस के पीछे मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का

परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिये पर्व करें । फिरौन ने कहा २  
यहांवा कौन है जो मैं उस का वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूँ, मैं न तो यहोवा को जानता और न इस्राए- ३  
लियों को जाने दूंगा । उन्होंने ने कहा इत्रियों के परमेश्वर ने हम से भेंट की है सो हमें जंगल में तीन दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिये बलिदान करें ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाये वा तलवार चलवाए । मिस्र के राजा ने उन से कहा, हे मूसा हे हारून ४  
तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाने चाहते हो, अपने अपने काम पर जाओ । और फिरौन ने कहा सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गये हैं फिर तुम उन को परिश्रम से विभ्राम दिलाना चाहते हो । और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करानेहारों को जो लोगों के ऊपर थे और उन के सरदारों को यह आज्ञा दी कि तुम जो अब लों इटें बनाने के लिये लोगों को पुआल दिया करते थे सो आगे को न देना, वे आप ही जा जाकर अपने अपने लिये पुआल ५  
बटाँरें । तीसरी जितनी इटें अब लों उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उन से बनवाना, इटों की गिनती कुछ भी न घटाना क्योंकि वे आलसी हैं इस कारण यह कहकर चिल्लाने हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिये बलिदान करे । उन मनुष्यों से और भी काठन सेवा ६  
कराई जाए कि वे उस में परिश्रम करें और झूठी बातों पर चिन्त न लगाएँ । तब लोगों के परिश्रम करानेहारों १०  
और सरदारों ने बाहर जाकर उन से कहा फिरौन यां कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं देने का । तुम ही ११  
जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहाँ से उस को बटोर ले आओ पर तुम्हारा काम कुछ भी न घटाया जाएगा । सो वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल १२  
की संती खटी बटोरें । और परिश्रम करानेहारे यह कह कह १३  
कर उन से जल्दी कराते रहे कि जैसा तुम पुआल पाकर किया करते थे वैसा ही अपना दिन दिन का काम अब भी पूरा करां । और इस्राएलियों में के जिन सरदारों को १४  
फिरौन के परिश्रम करानेहारों ने उन के आधिकारी ठहराया था उन्होंने ने मार खाई और उन से पूछा गया क्या कारण है कि तुम ने अपनी ठहराई हुई इटों की गिनती पहिले की नाई कल और आज पूरी नहीं कराई । तब इस्राए- १५  
लियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दोहाई यह कहकर दी कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है । तेरे दासों को पुआल तो दिया नहीं जाता और वे हम से १६  
कहते रहते हैं इटें बनाओ इटें बनाओ, और तेरे दासों ने मार भी खाई है, पर दोष तेरे ही लोगों का है । फिरौन ने १७

कहा तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते हो कि  
 १८ हमें यहोवा के लिये बलि करने को जाने दे। तो अब  
 जाकर काम करो और पुष्पाल तुम को न दिया जाएगा  
 १९ पर इष्टों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इस्राएलियों  
 के सरदारों ने यह बात सुनी कि तुम्हारी ईंटों की गिनती  
 न घटेगी और दिन दिन उतना ही काम पूरा करना तब  
 २० वे जान गये कि हमारे दुर्दिन आये। जब वे फिरौन के  
 सम्मुख से निकले आते थे तब मूसा और हारून जो  
 २१ उन की भेंट के लिये खड़े थे उन्हें मिले। और उदों ने  
 मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके  
 न्याय करे क्योंकि तुम ने हम को फिरौन और उस के  
 कर्मचारियों की दृष्टि में चिनौना<sup>१</sup> ठहरवाकर हमें घात  
 २२ करने के लिये उन के हाथ में तलवार दे दी है। तब  
 मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा हे प्रभु तू ने इस  
 प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तू ने मुझे यहाँ  
 २३ क्यों भेजा। जब से मैं तेरे नाम से बातें करने के लिये  
 फिरौन के पास गया, तब से उस ने इस प्रजा से बुराई  
 ही बुराई की है और तू ने अपनी प्रजा को कुछ भी नहीं  
 १ **६** छुड़ाया। यहोवा ने मूसा से कहा अब तू देखेगा  
 कि मैं फिरौन से क्या करूँगा जिस से वह उन  
 को बरबस निकालेगा वह तो उन्हें अपने देश से बरबस  
 निकाल देगा ॥  
 २ फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ।  
 ३ मैं अपने को सर्वशक्तिमान ईश्वर कहकर तो इब्राहीम  
 इसहाक और याकूब को दर्शन देता था पर यहोवा नाम  
 ४ से अपने को उन पर प्रगट न करता था। और मैं ने उन  
 के साथ अपनी वाचा दृढ़ की है कि कनान देश जिस में  
 ५ वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दूँ। और इस्राएली  
 जिन्हें मिस्री लोग दास करके रखते हैं उन का कराहना  
 ६ भी सुनकर मैं ने अपनी वाचा की दुर्ध ली है। इस  
 कारण तू इस्राएलियों से कह, कि मैं यहोवा हूँ और तुम  
 को मिस्रियों के भारों के नीचे से निकालूँगा और उन की  
 सेवा से तुम को छुड़ाऊँगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और  
 ७ भारी दण्ड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। और मैं तुम को अपनी  
 प्रजा होने के लिये अपना लूँगा और तुम्हारा परमेश्वर  
 ठहरूँगा और तुम जान लोगे कि यह जो हमें मिस्रियों के  
 भारों के नीचे से निकालता है सो हमारा परमेश्वर यहोवा  
 ८ है। और जिस देश के देने की किरिया<sup>२</sup> मैं ने इब्राहीम  
 इसहाक और याकूब से खाई थी उसी में मैं तुम्हें  
 ९ पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूँगा मैं तो यहोवा हूँ।

(१) मूल में दुर्गन्धित। (२) मूल में को हाथ। (३) मूल में

१५ उठाया था।

वे बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई पर उन्हीं ने  
 मन की अधीरता और सेवा की कठिनता के मारे उस की  
 न सुनी ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के १०, ११  
 राजा फिरौन से कह कि इस्राएलियों को अपने देश में से  
 जाने दे मूसा ने यहोवा से कहा देख इस्राएलियों ने मेरी १२  
 नहीं सुनी फिर फिरौन मुझ मद्दे बोलनेहारे<sup>३</sup> की क्योंकि  
 सुनेगा। सो यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों १३  
 और मिस्र के राजा फिरौन के लिये आज्ञा इस मानसा  
 से दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल  
 ले जाएं ॥

उन के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं। १४  
 इस्राएल के जेठे रुबेन के पुत्र हनोक, पल्लु, हेसोन और  
 कर्मी हुए इन्हीं से रुबेनवाले कुल निकले। और शिमोन १५  
 के पुत्र यमूएल यामीन ओहद याकिन और सोहर हुए  
 और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल भी हुआ, इन्हीं  
 से शिमोनवाले कुल निकले। और लेवी के पुत्र जिन से १६  
 उन की वंशावली चली है उन के नाम ये हैं, अर्थात्  
 गेशॉन, कहात और मरारी। और लेवी की सारी अवस्था  
 एक सौ सैंतीस बरस की हुई। गेशॉन के पुत्र जिन से उन १७  
 के कुल चले लिये और शिमी हुए। और कहात के १८  
 पुत्र अम्माम, यिसहार, हेन्नोन और उज्जीएल हुए। और  
 कहात की सारी अवस्था एक सौ सैंतीस बरस की हुई।  
 और मरारी के पुत्र महली और मूशी हुए लेवीयों के कुल १९  
 जिन से उन की वंशावली चली ये ही हैं। अम्माम ने २०  
 अपनी फूपी योकेबेद को ब्याह लिया और वह उस के  
 जन्माये हारून और मूसा को जना और अम्माम की सारी  
 अवस्था एक सौ सैंतीस बरस की हुई। और यिसहार के २१  
 पुत्र कोरह, नेपेग और जिकी हुए। और उज्जीएल के २२  
 पुत्र मीशाएल एलसापान और सित्री हुए। और हारून २३  
 ने अम्मीनादाब की बेटी और नहशोन की बहिन  
 एलीशेबा को ब्याह लिया और वह उस के जन्माये  
 नादाब, अबीहू, ऐलाजार और ईतामार को जनी। और २४  
 कोरह के पुत्र अस्तीर एलकाना और अबीआसाप हुए,  
 इन्हीं से कोरहियों के कुल निकले। और हारून के पुत्र २५  
 एलाजार ने पूतीएल की एक बेटी को ब्याह लिया और  
 वह उस के जन्माए पीनहास को जनी कुल चलानेहारे  
 लेवीयों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही हैं।  
 ये वे ही हारून और मूसा हैं जिन को यहोवा ने यह २६  
 आज्ञा दी कि इस्राएलियों को दल दल करके मिस्र देश  
 से निकाल ले जाओ। ये वे ही मूसा और हारून हैं २७

(४) मूल में खतनारहित होठवाले।

जिन्होंने इस्राएलियों को मिस्र से निकालने की मनसा से मिस्र के राजा फिरौन से बात की थी ॥

- २८ जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही,  
 २९ कि मैं हूँ यहोवा हूँ सो जो कुछ मैं तुम से कहूँगा वह  
 ३० सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना, और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ सो फिरौन मेरी क्यांकर सुनेगा । तब यहोवा ने मूसा से  
 १ **७.** कहा सुन मैं तुम्हें फिरौन के लिये परमेश्वर मा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा ।  
 २ जो जो आज्ञा मैं तुम्हें दूँ सो तू कहना और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिस से वह इस्राएलियों को अपने  
 ३ देश से निकल जाने दे । और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूँगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र  
 ४ देश में बहुत से दिखाऊँगा । तौभी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दण्ड देकर अपनी सेना अर्थात् अपनी  
 ५ इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकालूँगा । और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उन के बीच से निकालूँगा तब मिस्रि जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ।  
 ६ तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार  
 ७ ही किया । और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे तब मूसा तो अस्सी बरस का और हारून तिरासी बरस का था ॥

- ८ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से यों कहा कि  
 ९ जब फिरौन तुम से कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के साम्हने डाल दे कि वह अज-  
 १० गर बन जाए । सो मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उस के कर्मचारियों के साम्हने डाल दिया तब वह अजगर बन  
 ११ गई । तब फिरौन ने पण्डितों और टोनहों को बुलवाया और मिस्र के जावूगरो ने आकर अपने तंत्र मंत्रों से वैसा  
 १२ ही किया । उन्हों ने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी  
 १३ उन की लाठियों को निगल गई । पर फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहे के अनुसार उस ने मूसा और हारून की मानने को नकारा ॥

(मिस्रियों पर दस भारी विपत्तियों के पढ़ने का वर्णन)

- १४ तब यहोवा ने मूसा से कहा फिरौन का मन कठोर  
 १५ हो गया है कि वह इस प्रजा को जाने नहीं देता । सो

(१) मूल में अतनारहित होठवाला हू ।

बिहान को फिरौन के पास जा वह तां जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उस को हाथ में लिये हुए नील नदी<sup>२</sup> के तीर पर उस की भेंट के लिये खड़ा रहना । और उस से यों कहना कि इज्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने को तेरे पास भेजा कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरी उपासना करें और अब लो तू ने मेरी नहीं माना । यहोवा यों कहता है इसी से तू जानेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, देख मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूँगा तब वह लोहू बन जाएगा । और जो मछलियां नील नदी<sup>२</sup> में हैं वे मर जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी और नदी<sup>२</sup> का पानी पीने का मिस्रियों का जी न चाहेगा । फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात् उस की नदियां नहरें भीलें और पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि वे लोहू बन जाएं और सारे मिस्र देश में के काठ और पत्थर दोनों भान्त के जलपात्रों में भी लोहू हो जाएगा । तब मूसा और हारून ने यहांवा की आज्ञा के अनुसार किया अर्थात् उस ने लाठी को उठाकर फिरौन और उस के कर्मचारियों के देखते नील नदी<sup>२</sup> के जल पर मारा और जितना उस में जल था सब लोहू बन गया । और नील नदी<sup>२</sup> में जो मछलियां थीं सो मर गईं और नदी बसाने लगी और मिस्रि लोग नदी<sup>२</sup> का पानी न पी सके और सारे मिस्र देश में लोहू हो गया । तब मिस्र के जावूगरो ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया और फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहे के अनुसार उस ने मूसा और हारून की न मानी । सो फिरौन इस पर भी चिन्त न लगाकर और मुंह फेरके अपने घर गया । और सब मिस्रि लोग पीने के पानी के लिये नील नदी<sup>२</sup> के आसपास खोदने लगे क्योंकि वे नदी<sup>२</sup> का जल न पी सकते थे । और जब यहोवा ने नील नदी<sup>२</sup> को मारा उस के पीछे सात दिन बीते ।

**८.** तब यहोवा ने मूसा से कहा फिरौन के पास जाकर कह यहोवा तुम्हें से यों कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे मेरी उपासना करें । और यदि तू उन्हें जाने न दे तो सुन मैं मंडक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाता हूँ । और नील नदी<sup>२</sup> में डकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन और शयन की कोठरी में और तेरे बिल्लों पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर बरन तेरे तन्दूरों और कठौतियों में भी

(२) मूल में योर ।

- ४ चढ़ जायेंगे । और तुझ और तेरी प्रजा और तेरे कर्म-  
 ५ चारियों समों पर मेंडक चढ़ जायेंगे । फिर यहोवा ने  
 मूसा को आज्ञा दी कि हाबून से कह कि नदियों  
 नहरों और भीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना  
 हाथ बढ़ाकर मेंडकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आ ।  
 ६ तब हाबून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना  
 हाथ बढ़ाया और मेंडकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे  
 ७ छा लिया । और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही  
 ८ मिस्र देश पर मेंडक चढ़ा ले आये । तब फिरौन ने मूसा  
 और हाबून को बुलवाकर कहा यहोवा से बिनती करो  
 कि वह मेंडकों को मुझ से और मेरी प्रजा से दूर करे तब  
 मैं तुम लोगों को जाने दूँगा कि तुम यहोवा के लिये  
 ९ बलिदान करो । मूसा ने फिरौन से कहा इतनी बात पर  
 तो मुझ पर तेरा घमंड रहे कि मैं तेरे और तेरे कर्मचा-  
 रियों और प्रजा के निमित्त कब तक के लिये बिनती करूँ  
 कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंडकों को  
 १० दूर करे और वे केवल नील नदी<sup>१</sup> में पाये जाएँ । उस ने  
 कहा कल तक के लिये उस ने कहा तेरे बचन के  
 अनुसार होगा जिस से तू जान ले कि हमारे परमेश्वर  
 ११ यहोवा के तुल्य कोई नहीं है । सो मेंडक तेरे पास से और  
 तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास  
 १२ से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे । तब मूसा और हाबून  
 फिरौन के पास से निकल गये और मूसा ने उन मेंडकों  
 के विषय यहोवा की दोहाई दी जो उस ने फिरौन पर  
 १३ भेजे थे । और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार किया  
 १४ सो मेंडक घरों और आंगनों और खेतों में मर गये । और  
 लोगों ने इकट्ठे करके उन के ढेर लगा दिये, सो सारा  
 १५ देश बसाने लगा । जब फिरौन ने देखा कि आराम  
 मिला तब यहोवा के कहे के अनुसार उस ने अपने मन  
 का कठोर किया और उन की न सुनी ॥  
 १६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा हाबून को आज्ञा दे  
 कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार कि  
 १७ वह मिस्र देश भर में कुटाकियां बन जाए । सो उन्होंने  
 वैसा ही किया अर्थात् हाबून ने लाठी को ले हाथ  
 बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा तब मनुष्य और पशु  
 दोनों पर कुटकी हो गईं बरन सारे मिस्र देश में भूमि  
 १८ की धूल कुटकी बन गई । तब जादूगरों ने चाहा कि  
 अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटाकियां ले आएं  
 पर यह उन से न हो सका और मनुष्यों और पशुओं  
 १९ दोनों पर कुटाकियां बनी ही रहीं । तब जादूगरों ने फिरौन  
 से कहा यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है<sup>२</sup> तौ भी  
 (१) मूल में केर । (२) मूल में वह परमेश्वर की अंगुली है ।

यहोवा के कहे के अनुसार फिरौन का मन हठीला हो  
 गया और उस ने मूसा और हाबून की न मानी ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा बिहान को तड़के उठ २०  
 कर फिरौन के साम्हने खड़ा होना वह तो जल की और  
 आधगा और उस से कहना कि यहोवा तुझ से यों कहता  
 है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपा-  
 सना करें । यदि तू मेरी प्रजा को जाने न देगा तो सुन २१  
 मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और  
 तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजुंगा सो मिस्रियों के घर  
 और उन के रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी ।  
 उस दिन मैं गोशेन देश को जिस में मेरी प्रजा बसी है २२  
 अलग करूँगा और उस में डांसों के झुंड न होंगे जिस से  
 तू जान ले कि पृथिवी के बीच में ही यहोवा हूँ । और मैं २३  
 अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अन्तर ठहराऊँगा यह  
 चिन्ह कल होगा । और यहोवा ने योंही किया सो फिरौन २४  
 के भवन और उस के कर्मचारियों के घरों में और सारे  
 मिस्र देश में डांसों के झुंड के झुंड भर गये और डांसों  
 के मारे वह देश नाश हुआ । तब फिरौन ने मूसा और २५  
 हाबून को बुलवाकर कहा तुम जाकर अपने परमेश्वर के  
 लिये इसी देश में बलिदान करो । मूसा ने कहा ऐसा २६  
 करना उचित नहीं क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के  
 लिये मिस्रियों की धिन की वस्तु बलि करेंगे सो यदि हम  
 मिस्रियों के देखते उन की धिन की वस्तु बलि करें तो क्या  
 वे हम को पत्थरबाह न करेंगे । हम जंगल में तीन दिन के २७  
 मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिये जैसे वह  
 हम से कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे । फिरौन ने कहा २८  
 मैं तुम को जंगल में जाने दूँगा कि तुम अपने परमेश्वर  
 यहोवा के लिये जंगल में बलिदान करो केवल बहुत दूर  
 न जाना और मेरे लिये बिनती करो । सो मूसा ने कहा २९  
 सुन मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से बिनती करूँगा,  
 कि डांसों के झुण्ड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के  
 पास से कल ही दूर हों पर फिरौन आगे को कपट करके  
 हमें यहोवा के लिये बलिदान करने को जाने देने में नाह न  
 करे । सो मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा ३०  
 से बिनती की । और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार ३१  
 डांसों के झुण्डों को फिरौन और उस के कर्मचारियों  
 और उस की प्रजा से दूर किया यहां लों कि एक भी न  
 रहा । तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन का सुल ३२  
 किया और उन लोगों को जाने न दिया ॥

९. फिर यहोवा ने मूसा से कहा फिरौन के  
 पास जाकर कह, कि इब्रियों का परमे-  
 श्वर यहोवा तुझ से यों कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगों

- २ के जाने दे कि वे मेरी उपासना करें । और यदि तू उन्हें  
 ३ जाने न दे और अब भी पकड़े रहे, तो सुन तेरे जां बोड़े  
 गद्दे उंट गाय बैल भेड़ बकरी आदि पशु मैदान में है  
 उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी  
 ४ होगी । और यहोवा ह्साएलियों के पशुओं में और  
 मिस्सियों के पशुओं में ऐसा अन्तर करेगा, कि जो  
 ५ ह्साएलियों के हैं उन में से कोई भी न मरेगा । फिर  
 यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि मैं यह  
 ६ काम इस देश में कल करूंगा । दूसरे दिन यहोवा ने  
 ऐसा ही किया और मिस्स के तो सब पशु मर गये पर  
 ७ ह्साएलियों का एक भी पशु न मरा । और फिरौन ने  
 लोगों को भेजा पर ह्साएलियों के पशुओं में से एक भी  
 नहीं मरा था । तौ भी फिरौन का मन सुब हो गया  
 और उस ने उन लोगों को जाने न दिया ॥
- ८ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा भट्टी में  
 से अपनी अपनी मुट्टी भर राख लो और मूसा उसे फिरौन  
 ९ के साम्हने आकाश की ओर छिटकाए । तब वह सूक्ष्म  
 धूल होकर सारे मिस्स देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों  
 १० पर फफोलेवाले फोड़े बन जाएगी । सो वे भट्टी में की  
 राख लेकर फिरौन के साम्हने खड़े हुए और मूसा ने  
 उसे आकाश की ओर छिटका दिया सो वह मनुष्यों  
 ११ और पशुओं दोनों पर फफोलेवाले फोड़े बन गई । और  
 उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के साम्हने खड़े न  
 रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे तब मिस्सियों के वैसे ही  
 १२ जादूगरों के भी निकले थे । तब यहोवा ने फिरौन के  
 मन को हठीला कर दिया सो जैसा यहोवा ने मूसा से  
 कहा था उस ने उस की न सुनी ॥
- १३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा बिहान को तड़के  
 उठकर फिरौन के साम्हने खड़ा हो और उस से कह  
 १४ हाजियों का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मेरी प्रजा  
 के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें । नहीं तो  
 अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी  
 प्रजा पर सब प्रकार की बिपत्तियां डालूंगा इस लिये कि  
 तू जान ले कि सारी पृथिवी पर मेरे तुल्य कोई नहीं है ।  
 १५ मैं ने अब हाथ बढ़ा कर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से  
 मारा होता तो तू पृथिवी पर से सत्यानाश हो गया होगा ।  
 १६ पर सचमुच मैं ने इसी कारण तुझे बनाये रक्खा है कि  
 तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी  
 १७ पृथिवी पर प्रसिद्ध करूं । क्या तू अब भी मेरी प्रजा को  
 १८ बान्ध सा रोकता है कि उसे जाने न दे । सुन कल मैं इसी  
 समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिन के तुल्य

(१) मूल में तेरे इत्य पर ।

मि । की नेब पड़ने के दिन से ले अब लो कभी नहीं पड़े ।  
 सो अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान १९  
 में तेरा जो कुछ है सब को फुर्ती से आड़ में करा ले नहीं  
 तो जितने मनुष्य वा पशु मैदान में रहे और घर में हफड़े  
 न किये जाएं उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे ।  
 सो फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के २०  
 वचन का भय मानते थे उन्होंने ने तो अपने अपने सेबकों  
 और पशुओं को घर में हांक दिया । पर जिन्होंने ने यहोवा २१  
 के वचन पर मन न लगाया उन्होंने ने अपने सेबकों और  
 पशुओं को मैदान में रहने दिया ॥

तब यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ आकाश २२  
 की ओर बढ़ा कि सारे मिस्स देश के मनुष्यों पशुओं और  
 खेतों की सारी उपज पर ओले गिरें । सो मूसा ने अपनी २३  
 लाठी को आकाश की ओर बढ़ाया और यहोवा गरजाने  
 और ओले बरसाने लगा और आग पृथिवी लो आती  
 रही, सो यहोवा ने मिस्स देश पर ओले गिराये । जो २४  
 ओले गिरते थे उन के साथ आग भी लिपटती जाती थी  
 और वे ओले ऐसे अन्यन्त भारी थे कि जब से मिस्स देश  
 बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे कभी न पड़े थे । सो २५  
 मिस्स भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब  
 ओलों से मारे गये और ओलों से खेत की सारी उपज  
 मारी पड़ी और मैदान के सब वृत्त भी टूट गये । केवल २६  
 गोशेन देश में जहां ह्साएली बसे थे ओले न गिरे । तब २७  
 फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उन से  
 कहा कि इस बार तो मैं ने पाप किया है यहोवा धर्मी  
 है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी । परमेश्वर का गरजाना २८  
 और ओले बरसाना तो बहुत हो गया, सो यहोवा से  
 बिनती करो तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम  
 आगे को न रोके जाओगे । मूसा ने उस से कहा नगर २९  
 से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा तब  
 बादल का गरजना बन्द हो जाएगा और ओले फिर न  
 गिरेंगे इस से तू जान लेगा कि पृथिवी यहोवा ही की  
 है । तौ भी मैं जानता हूं कि न तो तू और न तेरे कर्मचारी ३०  
 यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे । सन और यव तो मारे ३१  
 पड़े क्योंकि यव की बालें निकल चुकी थीं और सन में  
 फूल लगे हुए थे । पर गोहूँ और कठिया गोहूँ जा बड़े ३२  
 हुए न थे इस से वे मारे न गये । जब मूसा ने फिरौन के ३३  
 पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ  
 फैलाये तब बादल का गरजना और ओलों का बरसाना  
 बन्द हुआ और फिर बहुत मेंह भूमि पर न पड़ा । यह देखकर ३४  
 कि मेंह और ओले और बादल का गरजना बन्द हो गया  
 फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन के

३५ कठोर करके पाप किया । और फिरौन का मन हठीला हुआ और उस ने इस्राएलियों को जाने न दिया जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था ॥

१०. फिर यहोवा ने मूसा से कहा फिरौन

के पास जा क्योंकि मैं ही ने उस के और उस के कर्मचारियों के मन का इस लिये कठोर कर दिया कि अपने वे चिन्ह उन के बीच दिखाऊँ । और तुम लोग अपने बेटों पोतों से इस का बर्णन करो कि यहोवा ने मिस्त्रियों को कैसे ठुठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उन के बीच प्रगट किये, जिस से तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ ।  
२ तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इत्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझ से यों कहता है कि मेरे आगे दबने को तू कब लों नकारता रहेगा मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें । यदि तू मेरी प्रजा को जाने देना नकारता रहे तो सुन कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगी । और वे धरती को ऐसा झा लेंगी कि वह देख न पड़ेगी और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उस को वे चट कर जाएंगी और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उन को भी वे चट कर जाएंगी । और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों निदान सारे मिस्त्रियों के घरों में भर जाएंगी इतनी टिड्डियाँ तेरे बापदादों ने वा उन के पुरखाओं ने जन्म से पृथिवी पर जन्मे तब से आज लों कभी न देखीं ।  
७ और वह मूह फेरके फिरौन के पास से बाहर गया । तब फिरौन के कर्मचारी उस से कहने लगे । वह जन कब लों हमारे लिये फन्दा बना रहेगा उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें क्या तू अब लों नहीं जानता कि मिस्त्र भर नाश हो गया है । तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुला लिये गये और उस ने उन से कहा चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, पर जानेहारे कौन कौन हैं ।  
९ मूसा ने कहा हम तो बेटों बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों सब समेत बरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएँगे क्योंकि हमें यहोवा के लिये पर्व करना है । उस ने उन से कहा यहोवा यों ही तुम्हारे संग रहे कि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने दूँ देखो तुम बुराई ही की कल्पना करते हो । नहीं ऐसा न होने पाएगा तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो तुम यही तो मांगा करते थे । और वे फिरौन के पास से निकाल दिये गये ॥  
१२ तब यहोवा ने मूसा से कहा मिस्त्र देश के ऊपर

अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियाँ मिस्त्र देश पर चढ़के भूमि का जितना अन्धादि ओलों से बचा है सब को चट कर जायँ । और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्त्र देश के ऊपर बढ़ाया तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियाँ आईं । और टिड्डियों ने चढ़के मिस्त्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया, उन का दल बहुत भारी था बरन न तो उन से पाहले ऐसी टिड्डियाँ आई थीं और न उन के पीछे ऐसी फिर आएँगी । वे तो सारी धरती पर छा गई यहाँ लों कि देश अंधेरा हो गया और उस का सारा अन्धादि और वृक्षों के सब फल निदान जो कुछ ओलों से बचा था सब को उन्होंने ने चट कर लिया, यहाँ लों कि मिस्त्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत के किसी अन्धादि में । तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवाके कहा, मैं ने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है । सो अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से बिनती करो कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे । तब मूसा ने फिरौन के पास से निकल कर यहोवा से बिनती की । तब यहोवा ने उलटे बहुत प्रचण्ड पक्षुवां बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्त्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डि न रह गई । तौ भी यहोवा ने फिरौन के मन को हठीला कर दिया इस से उस ने इस्राएलियों को जाने न दिया ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्त्र देश के ऊपर अन्धकार छा जाए ऐसा अन्धकार कि उस का स्पर्श तक हो सके । तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्त्र देश में तीन दिन लों ओर अन्धकार छाया रहा । तीन दिन लों न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा पर सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा । तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो अपने बालकों को भी संग लिये जाओ केवल अपनी भेड़बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ । मूसा ने कहा तुझ को हमारे हाथ मेलबलि और होमबलि के पशु भी देने पड़ेंगे जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिये चढ़ाएँ । सो हमारे पशु भी हमारे संग जाएँगे उन का एक खुर लों न रह जाएगा क्योंकि उन्हीं में से हम को अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा और हम जब लों वहाँ न पहुँचें तब लों नहीं जानते कि क्या क्या

२७ लेकर यहाँवा का उपासना करना हागी । पर यहाँवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया इस से उस ने उन्हें २८ जानि न दिया । सो फिरौन ने उस से कहा मेरे साम्हने से चला जा और सच्यंत रह मुझे अपना मुख फिर न दिखाना क्योंकि जिस दिन तू मुझे मूँह दिखाए २९ उसी दिन तू मारा जाएगा । मूसा ने कहा कि तू ने ठीक कहा है मैं तेरे मूँह को फिर कभी न देखूंगा ॥

**११. फिर** यहाँवा ने मूसा से कहा एक और

विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ उस के पीछे वह तुम लोगों को यहां से जाने देगा और जब वह जाने देगा तब तुम सभी को २ निश्चय निकाल देगा । मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चाँदी के गहने मांग ले । तब ३ यहाँवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया । इस से अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्म-चारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान् था ॥ ४ फिर मूसा ने कहा यहाँवा यों कहता है कि आधी रात ५ के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा । तब मिस्र में सिंहासन पर विराजनेवाले फिरौन से लेकर चक्की पीसनेवाली दासी तक सब के पहिलौठे बरन पशुओं तक ६ के सब पहिलौठे मर जाएँगे । और मांगे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा यहां लों कि उस के समान न तो ७ कभी हुआ और न होगा । पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी न भोंकेगा जिस से तुम जान लों कि मिस्रियों और इस्राएलियों में ८ मैं यहाँवा अन्तर करता हूँ । तब तेरे ये सब कर्मचारियों मेरे पास आ मुझे दण्डवत् करके यह कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा और उस के पीछे मैं निकल ही जाऊंगा । यह कह के मूसा भुके हुए कोप के साथ फिरौन के पास से निकल गया ॥

९ यहाँवा ने तो मूसा से कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी न सुनेगा क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में १० बहुत चमत्कार करूं । सो मूसा और हारून ने फिरौन के साम्हने ये सब चमत्कार किये पर यहाँवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया इस से उस ने इस्राएलियों को अपने देश से जाने न दिया ॥

(१) मिस्र नाम पशु का विधान और इस्राएलियों का कूच करना)

**१२. फिर** यहाँवा ने मिस्र देश में मूसा और

हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिये आरम्भ का ठहरे अर्थात् बरस का ३ पहला महीना यही ठहरे । इस्राएल की सारी मण्डली

से यों कहो कि इसी महीने के दसवें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेला ले रखो । और यदि किसी के घराने में एक मेले के खाने के लिये मनुष्य कम हों तो वह अपने सब से निकट रहनेवाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेला ले रखे तुम एक एक के खाने के अनुसार मेला का लेखा करना । तुम्हारा मेला निर्दोष और पहिले बरस का नर हो और उसे चाहे मेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से । और इस महीने के चौदहवें दिन लों उसे रख छोड़ना और उस दिन गोधूलि के समय इस्राएल की सारी मण्डली के लोग उसे बलि करें । तब वे उस के लोह में से कुछ लेकर जिन घरों में मेले को खाएँगे उन के द्वार के दोनों बाजुओं और चौखट के सिरे पर लगाएँ । और वे उस के मांस को उसी रात में आग से भूजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएँ । उस को सिर पैर और अन्तरियों समेत आग में भूजकर खाना कच्चा वा जल में कुछ भी सिंभाकर न खाना । और उस में से कुछ बिहान लों न रहने देना और यदि कुछ बिहान लों रह भी जाए तो उसे आग में जला देना । और उस के खाने की यह विधि है कि कटि बांधे पांव में जूती पहिने और हाथ में लाठी लिये हुए उसे कुर्ती से खाना वह तो यहाँवा का फसल होगा । क्योंकि उस रात में मैं मिस्र देश के बीच होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दण्ड दूंगा, मैं तो यहाँवा हूँ । और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लोह तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा अर्थात् मैं उस लोह का देखकर तुम को छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे । और वह दिन तुम को स्मरण दिलानेवाला ठहरेगा और तुम उस को यहाँवा के लिये पर्व करके मानना वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए । सात दिन लों अखमीरी रोटी खाया करना उन में से पहिले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, बरन जो कोई पहिले दिन से लेकर सातवें दिन लों कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया जाए । और पहिले दिन एक पवित्र सभा और सातवें दिन भी एक पवित्र सभा करना उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए केवल जिस प्राणी

(१) अर्थात् लांघनपर्व । (२) मूल में लांघके ।

- १७ का जो खाना हो उस के काम करने की आज्ञा है । सो  
तुम बिन खमीर की रोटी का पच मानना क्योंकि उसी  
दिन<sup>१</sup> मैं तुम को दल दल करके मिस्र देश से निका-  
लूंगा इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की  
१८ विधि जानकर माना जाए । पहिले महीने के चौदहवें दिन  
की सांक्र से लेकर इक्कीसवें दिन की सांक्र लों तुम अख-  
१९ मीरी रोटी खाया करना । सात दिन लों तुम्हारे घरों में  
कुछ भी खमीर न रहे बरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु  
को खाए चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी वह प्राणी  
२० इस्राएलियों की मण्डली से नाश किया जाए । कोई  
खमीरी वस्तु न खाना अपने सब घरों में बिन खमीर  
ही की रोटी खाया करना ॥
- २१ तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर  
कहा तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेझा  
२२ अलग कर रखो और फसह<sup>२</sup> का पशु बलि करना । और  
उस का लोहू जो तसले में होगा उस में जूफा का एक  
गुन्झा बोरकर उसी तसले में के लोहू से द्वार के  
चौखट के सिरे और दोनों बाजुओं पर कुछ लगाना और  
२३ भार लों तुम में से कोई घर से बाहर न निकले । क्योंकि  
यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा  
सो जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों बाजुओं पर  
उस लोहू को देखे वहां वहां वह उस द्वार को छोड़  
जाएगा और नाश करनेहारे को तुम्हारे घरों में मारने के  
२४ लिये न जाने देगा । फिर तुम इस विधि को अपने और  
अपने वंश के लिये सदा की विधि जानकर माना करो ।  
२५ जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहे के अनुसार  
तुम को देगा प्रवेश करो तब यह काम किया करना ।  
२६ और जब तुम्हारे लड़केबाले तुम से पूछें कि इस काम से  
२७ तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तब तुम उन को यह उत्तर  
देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र  
में रहते हुए हम इस्राएलियों के घरों को छोड़के<sup>३</sup> हमारे  
घरों को बचाया, इसी कारण उस के फसह<sup>२</sup> का यह  
बलिदान किया जाता है तब लोगों ने स्त्र भुकाकर  
२८ दखडवत् की । और इस्राएलियों ने जाके जो आज्ञा यहोवा  
ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया ॥
- २९ आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर  
बिठाजनेहारे फिरौन से लेकर गड़ह में पड़े हुए बन्धुए तक  
सब के पहिलौठों को बरन पशुओं तक के सब पहिलौठों  
३० को मार डाला । और फिरौन रात ही को उठ बैठा और  
उस के सब कर्मचारी बरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में  
बड़ा हाहाकार मचा क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिस

में कोई मरा न हो । तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा ३६  
और हारून को बुलवाकर कहा तुम इस्राएलियों समेत  
मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहे के  
अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो । अपने कहे के ३७  
अनुसार अपनी मेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले  
जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ । और मिस्री जो ३८  
कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं सो उन्होंने ने इस्राएली  
लोगों को दबाके कहा कि देश से भटपट निकल जाओ ।  
सो उन्होंने ने अपने गंधे गुन्घाये आटे को बिन खमीर ३९  
दिये ही कठौतियों समेत कपड़ों में बान्धके अपने अपने  
कन्धे पर चढा लिया । और इस्राएलियों ने मूसा के कहे ३५  
के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र  
मांग लिये । और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के ३६  
लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने ने जो जो मांगा सो  
सो दिया । सो इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया ॥

तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुकैत को ३७  
चले और बालबच्चों को छोड़ वे कोई छः लाख पुरुष  
प्यादे थे । और उन के साथ मिस्री जुली हुई एक भीड़ ३८  
गई और मेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गये ।  
सो जो गंधा आटा वे मिस्र से साथ ले गये उस की ३९  
उन्होंने ने बिन खमीर दिये रोटियां बनाईं क्योंकि वे मिस्र  
से ऐसे बरबस निकाले गये कि बिलम्ब न कर सके और  
न मार्ग में खाने के लिये कुछ बना सके थे इसी से वह  
गंधा आटा बिन खमीर का था । मिस्र में बसे हुए ४०  
इस्राएलियों को चार सौ तीस बरस बीत गये थे । और ४१  
उन चार सौ तीस बरसों के बीते पर ठीक उसी दिन  
यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई । यहोवा ४२  
जो इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया इस  
कारण वह रात उस के निमित्त मानने के अति योग्य है  
यह यहोवा की वही रात है जिस का पीढ़ी पीढ़ी में मानना  
इस्राएलियों को अति अवश्य है ॥

फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा फसह<sup>२</sup> की ४३  
विधि यह है कि कोई परदेशी उस में से न खाए । पर ४४  
जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों  
ने उस का खतना किया हो वह तो उस में से खा  
सकेगा । पर उपरी और मजूर उस में से न खाए । ४५  
उस का खाना एक ही एक घर में हो अर्थात् तुम उस के ४६  
मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना । और बलिपशु  
की कोई हड्डी न तोड़ना । फसह<sup>२</sup> का मानना इस्राएल ४७  
की सारी मण्डली का कर्त्तव्य कर्म है । और यदि कोई ४८  
परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिये फसह<sup>२</sup>

(१) मूल में आज ही के दिन । (२) अर्थात् लांघनपर्व । (३) मूल में लांघ ।

(१) अर्थात् लांघन पर्व ।



को मानना चाहे तो वह अपने वहां के सब पुरुषों का खतना कराए तब वह समीप आकर उस को माने और वह तो देशी मनुष्य के बराबर ऊहरे पर कोई खतनाराहित ४९ पुरुष उस में से न खाने पाए । उस की व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहनेहारे परदेशी दोनों के लिये एक ५० ही हो । यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को ५१ दी उस के अनुसार सारे इस्राएलियों ने किया । और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया ॥

२ १३. फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी मा के पहिलौठे हों उन्हें मेरे लिये पवित्र मानना वह तो मेरा ही है ॥

३ फिर मूसा ने लोगों से कहा इस दिन को स्मरण करो जिस में तुम लोग दासत्व के घर अर्थात् मिस्र में निकल आये हो यहोवा तो तुम को वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया, खमीरी रोटी न खाई जाए । ४ आबीब महीने के इसी दिन में तुम निकलने लगे हो । ५ सो जब यहोवा तुम को कनानी हित्ती एमोरी हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा जिस के तुम्हें देने की उस ने तुम्हारे पितरों से किरिया खाई थी और उस में दूध और मधु की धारा बहती है तब तुम इसी महीने में यह ६ काम करना । सात दिन लों खमीरी रोटी खाया करना ७ और सातवें दिन यहोवा के लिये पर्व मानना । इन सातों दिनों में खमीरी रोटी खाई जाए बरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए । ८ और अगले समय १ तुम अपने अपने बेटे को यह कहके समझ देना कि वह तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे ९ लिये किया था । फिर यह तुम्हारे लिये तुम्हारे हाथ पर की चिन्हानी और तुम्हारी भौंओं के बीच की स्मरण करानेहारी वस्तु का काम दे जिस से यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मंह पर रहे क्योंकि यहोवा तुम्हें बलवन्त हाथ से मिस्र से १० निकाल लाया है । इस कारण तुम इस विधि को बरस बरस नियत समय पर माना करना ॥

११ फिर जब यहोवा उस किरिया के अनुसार जो उस ने तुम्हारे पितरों से और तुम से भी खाई है तुम्हें कना- १२ नियों के देश में पहुंचाकर उस के तुम्हें देगा, तब तुम में से जितने अपनी अपनी मा के पहिलौठे हों उन को और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हों उन को भी यहोवा

के लिये अर्पण करना, नर तो यहोवा के हैं । और गदही १३ के हर एक पहिलौठे की सन्ती मेम्ना देकर उस को छुड़ा लेना और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उस का गला तो देना पर अपने सब पहिलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना । और आंग के दिनों में जब तुम्हारे १४ बेटे तुम से पूछें कि यह क्या है, तो उन से कहना कि यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात् मिस्र देश से हाथ के बल से निकाल लाया है । उस समय जब १५ फिरौन कठोर होकर हमें छोड़ना नकारता था तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु लों सब के पहिलौठों को मार डाला इसी कारण पशुओं में से तो जितने अपनी अपनी मा के पहिलौठे नर हैं उन्हें हम यहोवा के लिये बलि करते हैं पर अपने सब पहिलौठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेने हैं । और यह तुम्हारे हाथों पर १६ चिन्हानी सी और तुम्हारे भौंओं के बीच टीका सा ठहरे क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से हाथ के बल से निकाल लाया है ॥

जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया तब यद्यपि १७ पलिशतियों के देश होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था तौ भी परमेश्वर यह सांच के उन को उस मार्ग से न ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब थे लांग लड़ाई देखें तब पछुताकर मिस्र को लौट आए । सो परमेश्वर उन १८ को चकर खलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला । और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से चले गये । और मूसा यूसुफ की हाडुयों के साथ लेता गया क्योंकि १९ यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहके कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा उन को इस विषय की हठ किरिया खिलाई थी कि हम तेरी हाडुयों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे । फिर उन्हों ने सुष्कोत से कूच करके जंगल की २० छोर पर एताम में डेरा किया । और यहोवा उन्हें दिन को २१ तो मार्ग दिखाने के लिये बादल के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिये आग के खंभे में होकर उन के आगे आगे चला करता था कि वे रात और दिन दोनों में चल सके । उस ने न तो बादल के खंभे को दिन में २२ न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया ॥

(इस्राएल के लाल समुद्र के पार जाने का बर्णन)

१४. यहोवा ने मूसा से कहा । इस्राएलियों २ को आज्ञा दे कि तुम फिरके सिगदोल और समुद्र के बीच पीहाहीरात के सन्मुख वालसपोन के साम्हने अपने डेरे खड़े करो उसी के साम्हने समुद्र के तीर पर डेरे खड़े करो । तब फिरौन ३ इस्राएलियों के विषय में सोचैगा कि वे देश में बके हैं

४ जंगल के कारण फंस गये हैं। सो मैं फिरौन के मन को हठाला कर दूंगा और वह उन का पीछा करेगा, सो फिरौन और उस की सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने ५ ने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गये, तब फिरौन और उस के कर्मचारियों का मन उन के विरुद्ध फिर गया और वे कहने लगे हम ने यह क्या किया कि इस्राएलियों ६ को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उस ने अपना रथ तैयार किया और अपनी सेना को संग ७ लिया। सो उस ने छुः सौ अच्छे से अच्छे रथ बरन मिस्र के सब रथ लिये और उन सभी पर सरदार बैठाये। और ८ यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को हठाला कर दिया सो उस ने इस्राएलियों का पीछा किया और इस्राएली ९ तां बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उन का पीछा करके उन्हें जो पीहाहीरोत के पास बालसपोन के साम्हने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया। १० जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा किये चले आते हैं और इस्राएलियों ने आति भय खाकर चलाकर ११ यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कबरे न थीं जो तू हम को वहां से मरने के लिये जंगल में ले आया है, तू ने हम से यह क्या किया कि १२ हम को मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझ से मिस्र में यही बात न कहते रहे, कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिये जंगल में मरने से १३ मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उदार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिये करेगा क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन को फिर कभी न देखोगे। १४ यहोवा आप ही तुम्हारे लिये लड़ेगा, सो तुम चुपचाप रहो ॥ १५ तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच १६ करो। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जायगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएं। १७ और सुन मैं आप मिस्रियों के मन को हठाला करता हूँ और वे उन का पीछा करके समुद्र में पैरों तब फिरौन और उस की सारी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी १८ महिमा होगी। सो जब फिरौन और उस के रथों और

(१) मूल में ऊंचे हाथ के साथ ।

सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का वृत्त जो इस्राएली १९ सेना के आगे आगे चला करता था, सो जाकर उन के पीछे हो गया और बादल का खंभा उन के आगे से हटकर उन के पीछे जा ठहरा। सो वह मिस्रियों की सेना २० और इस्राएलियों की सेना के बीच आ गया और बादल और अन्धकार तो हुआ तौ भी उस ने रात को प्रकाशित किया और वे रात भर एक दूसरे के पास न आये। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और २१ यहोवा ने रात भर प्रचण्ड पुरवाई चलाई और समुद्र का दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया कि उस के बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल २२ ही स्थल हांकर चले और जल उनकी दहिनी और बाईं ओर भीत का काम देता था। तब मिस्री अर्थात् २३ फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उन का पीछा किये हुए समुद्र के बीच में चले गये। और रात के पछल २४ पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। और उस ने उन के रथों के पहियों को निकाल डाला २५ सो उन का चलाना काठन हो गया तब मिस्री आपस में कहने लगे आओ हम इस्राएलियों से भागें क्योंकि यहोवा उन की आर से मिस्रियों के साथ लड़ता है ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ समुद्र के २६ ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उन के रथों और सवारों पर फिर बह आए। तब मूसा ने अपना हाथ २७ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आने लगा और मिस्री उस के उलटे भागने लगे पर यहोवा ने उन को समुद्र के बीच भटक दिया। और जल पलटने से जितने २८ रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आये वे सो सब बरन फिरौन की सारी सेना उस में डूब गई और उस में से एक भी न बचा। पर इस्राएली समुद्र २९ के बीच स्थल ही स्थल होकर चले गये और जल उन की दहिनी और बाईं दोनों ओर भीत का काम देता था। सो यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों ३० के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तीर पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने ३१ मिस्रियों पर जो अपना हाथ बलवन्त दिखाया उस को इस्राएलियों ने देखकर यहोवा का भय माना और यहोवा की और उस के दास मूसा की भी प्रतीति की ॥

१५. तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिये यह गीत गाया। उन्होंने ने कहा

- मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा;  
घोड़ों समेत सवारों को उस ने समुद्र में डाल दिया है ॥
- २ याह मेरा बल और भजन का विषय है  
और वह मेरा उद्धार ठहर गया है,  
मेरा ईश्वर वही है मैं उस की स्तुति करूंगा,  
मेरे पितर का परमेश्वर वही है, मैं उस को सराहूंगा ।
- ३ यहोवा योद्धा है,  
उस का नाम यहोवा ही है ॥
- ४ फिरोन के रथों और सेना को उस ने समुद्र में डाल  
दिया,  
और उस के उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गये ॥
- ५ गहिरें जल ने उन्हें ढांप लिया,  
वे पत्थर की नाईं गहिरें स्थानों में डूब गये ॥
- ६ हे यहोवा तेरा दहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ  
हे यहोवा तेरा दहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है ॥
- ७ और तू अपने विरोधियों को अपने अति प्रताप से गिरा  
देता है ।  
तू अपना क्रोध भड़काता और वे भूसे की नाईं भस्म  
हो जाते हैं ।
- ८ और तेरे नथनों की सांस से जल की राशि हो गई ॥  
धाराएं ढेर की नाईं थम गईं,  
समुद्र के मध्य में गहिरा जल जम गया ॥
- ९ शत्रु ने कहा था  
मैं पीछा करूंगा मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट को बांट लूंगा  
उन से मेरा जी भर जाएगा,  
मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उन को  
नाश कर डालूंगा ॥
- १० तू ने अपने श्वास का पवन चलाया तब समुद्र ने उन  
को ढांप लिया ॥  
वे महाजलराशि में सीसे की नाईं डूब गये ॥
- ११ हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है,  
तू तो पवित्रता के कारण प्रतापी और अपनी स्तुति  
करनेहारों के भय के योग्य  
और आश्चर्यकर्म का कर्ता है ॥
- १२ तू ने अपना दहिना हाथ बढ़ाया है  
पृथिवी उन को निगले जाती है ॥
- १३ अपनी करुणा से तू ने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की  
अगुवाई की है,  
अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवासस्थान को ले  
चला है ।
- १४ देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे  
पल्लितियों के मानों पीड़ें उठेंगी ॥

- तब एदोम के अधिपति भभर जाएंगे । १५
- मोआव के महाबलियों को धरधराहट पकड़ेगी  
सब कनाननिवासी गल जाएंगे ॥
- उन में त्रास और घबराहट समाएगी १६
- तेरी बांह के प्रताप से वे पत्थर की नाईं अनबोल  
हो जाएंगे,  
तब लों हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग पार होंगे  
तब लों तेरी मोल ली हुई प्रजा के लोग पार हो जाएंगे ।  
तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भागवाले पहाड़ पर रोपेगा १७
- यह वही स्थान है, हे यहोवा जिसे तू ने अपने निवास  
के लिये बनाया  
और वही पवित्रस्थान है जिसे हे प्रभु तू ने आप ही  
स्थिर किया है ॥
- यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा । १८
- यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरोन के घोड़े रथों १९
- और सवारों समेत समुद्र के बीच में पैठ गये और यहोवा  
उन के ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया पर इस्त्राएली  
समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले गये । और हारून २०
- की बहिन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और  
सब स्त्रियां डफ लिये नाचती हुई उस के पीछे हो लीं ।  
और मरियम उन के साथ यह टेक गाती गई कि । २१
- यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है  
घोड़ों समेत सवारों को उस ने समुद्र में डाल दिया है ॥
- तब मूसा ने इस्त्राएलियों को लाल समुद्र से कूच २२
- कराया और वे शर नाम जंगल में निकल गये और  
जंगल में जाते हुए तीन दिन लों पानी न पाया । फिर २३
- मारा नाम एक स्थान पर पहुंचकर वहां का पानी जो  
खारा था सो उसे न पी सके इस कारण उस स्थान का  
नाम मारा पड़ा । सो वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध २४
- कुड़कुड़ाने लगे कि हम क्या पीएं । तब मूसा ने यहोवा २५
- की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पेड़ बतला दिया  
जिसे जब उस ने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो  
गया । वहीं यहोवा ने उन के लिये एक विधि और नियम  
ठहराया और वही उस ने यह कहकर उन की परीक्षा २६
- की, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन  
मन से सुने और जो उस की दृष्टि में ठीक है वही करे  
और उस की आज्ञाओं पर कान लगाए और उस की सब  
विधियों को माने, तो जितने रोग मैं ने मिस्रियों के  
उपजाये थे उन में से एक भी तेरे न उपजाऊंगा क्योंकि  
मैं तुम्हारा चंगा करनेहारा यहोवा हूँ ॥

(इसाएलियों को आकार से रोटी और चटान में से पानी मिलाने का वखन)

- २७ तब वे एलीम को आये जहां पानी के बारह सोते और सत्तर खजूर के पेड़ थे और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किये । फिर एलीम से कूच करके
- १ १६. इस्राएलियों की सारी मण्डली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के पंद्रहवें दिन को सीन नाम जंगल में जो एलीम और सीन पर्वत के बीच में है २ आ पहुँची । जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाई । और इस्राएली उन से कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियाँ के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हम को इस जंगल में इस लिये निकाल ले आये हो कि ४ इस सारे समाज को भूखों मार डालो । तब यहोवा ने मूसा से कहा सुन, मैं तुम लोगों के लिये आकाश से भोजनवस्तु बरसाऊंगा और ये लोग दिन दिन बाहर जाकर दिन दिन का भोजन बटोरा करेंगे, इस से मैं उन की परीक्षा करूँगा, कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि ५ नहीं । और छठवें दिन वह भोजन और दिनां से दूना होगा सो जो कुछ थे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर ६ रक्वें । तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांभ को तुम जान लोंगे कि जो तुम का मिस्र देश ७ से निकाल ले आया है वह यहोवा है । और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा क्योंकि तुम यहोवा पर जो कुड़कुड़ाते हो उसे वह सुनता है और हम क्या हैं कि ८ तुम हम पर कुड़कुड़ाते हो । फिर मूसा ने कहा यह कब होगा जब यहोवा सांभ को तो तुम्हें खाने के लिये मांस और भोर का रोटी मनमानते देगा, क्योंकि तुम जो उस पर कुड़कुड़ाते हो उसे वह सुनता है और हम क्या हैं तुम्हारा ९ कुड़कुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है । फिर मूसा ने हारून से कहा इस्राएलियों की सारी मण्डली को आज्ञा दे कि यहोवा के साम्हने बरन उस के समीप आओ १० क्योंकि उस ने तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुना है । हारून इस्राएलियों की सारी मण्डली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्ट करके देखा कि बादल ११ में यहोवा का तेज देख पड़ता है । तब यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना मैं ने सुना है सो उन से कह दे कि गोधूलि के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम यह १३ जान लोंगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ । सांभ को क्या हुआ, कि बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई और ४ भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी । और जब

आस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छांट्टाई में पाछे के किनकों के समान पड़े हैं । वह देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि यह १५ क्या वस्तु है सो आपस में कहने लगे यह तो मान<sup>२</sup> है तब मूसा ने उन से कहा, यह तो वही भोजनवस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिये देता है । जो आज्ञा १६ यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उस में से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना अर्थात् अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार मनुष्य पीछे एक एक ओमेर बटोरना जिस के डेरे में जितने हो सो उन्हीं भर के लिये बटोरा करे । सो इस्राएलियों ने वैसा ही किया १७ और किसी ने अधिक किसी ने थोड़ा बटोर लिया । और १८ जब उन्होंने उस का ओमेर से नापा, तब जिस के पास अधिक था उस के कुछ अधिक न रह गया और जिस के पास थोड़ा था उस का कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था । फिर मूसा ने उन से कहा कोई इस में से कुछ बिहान लो १९ न रख छोड़े । तो भी उन्होंने मूसा को न मानी, सो जब २० किसी किसी मनुष्य ने उस में से कुछ बिहान लो रख छोड़ा तब उस में कीड़े पड़े गये और वह बसाने लगा तब मूसा उन पर रासियाथा । और उसे भोर भोर को वे अपने २१ अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था । पर छठवें दिन उन्होंने २२ ने दूना अर्थात् मनुष्य पीछे दो दो ओमेर बटोर लिये और मण्डली के सब प्रधानों ने आकर मूसा का बता दिया । उस ने उन से कहा यह तो वही बात है जो २३ यहोवा ने कही, क्योंकि कल परमाश्राम अर्थात् यहोवा के लिये पावन विश्राम होगा, सो तुम्हें जो तन्दूर में पकाना हो उसे पकाओ और जो सिभाना हो उसे सिभानो और इस में से जितना बचे उसे बिहान के लिये रख २४ छोड़ो । जब उन्होंने उस को मूसा की इस आज्ञा के अनुसार बिहान लो रख छोड़ा, तब न तो वह बसाया भार २५ न उस में कीड़े पड़े । तब मूसा ने कहा आज उसी को खाओ क्योंकि आज जो यहोवा का विश्राम दिन है इस लिये आज तुम को वह मैदान में न मिलेगा । छः दिन २६ तो तुम उसे बटोरा करोगे, पर सातवां दिन जो विश्राम का दिन है उस में वह न मिलेगा । तोभी लोगों में से २७ कोई कोई सातवें दिन बटोरने के लिये बाहर गये पर उन को कुछ न मिला । तब यहोवा ने मूसा से कहा तुम २८ लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था का मानना कब लो नकारते रहोगे । देखो यहोवा ने जो तुम को विश्राम का २९

(१) मूल में चक । (२) अर्थात् क्या वा अरा ।

दिन दिया है इसी कारण वह छठवें दिन को दो दिन का  
 भोजन तुम्हें देता है सो तुम अपने अपने यहां बैठे रहना  
 ३० मातृवें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना । सो  
 ३१ लोगों ने सातवें दिन विश्राम किया । और इस्राएल के  
 घरानेवालों ने उस वस्तु का नाम मान रक्खा और वह  
 धनिया के समान श्वेत था और उस का स्वाद मधु के  
 ३२ बने हुए पूए का सा था । फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने  
 जो आज्ञा दी वह यह है कि इस में से आमेर भर अपने  
 वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिये रख छोड़ो, जिस से वे जानें  
 कि यहोवा हम को मिस्र देश से निकालकर जंगल में  
 ३३ कैसी रोटी खिलाता था । तब मूसा ने हारून से कहा एक  
 पात्र लेकर उस में आमेर भर मान रख और उसे यहोवा  
 के आगे धर दे, कि वह तुम्हारी पाण्डियों के लिये रक्खा  
 ३४ रहे । सो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के  
 अनुसार हारून ने उस को साक्षीपात्र के आगे धर दिया  
 ३५ कि वह वहीं रक्खा रहे । इस्राएली जब लौं बसे हुए देश  
 में न पहुंचे तब लौं अर्थात् चालीस बरस लौं मान का खाते  
 रहे वे जब लौं कमान देश के सिवाने पर न पहुंचे तब लौं  
 ३६ मान का खाते रहे । आमेर तो एग्रा का दमवां भाग है ॥

**१७. फिर** इस्राएलियों की सारी मण्डली मान

नाम जंगल में निकल चली और  
 यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने  
 डेरे खड़े किये और वहां लोगों को पाने का पानी न मिला ।  
 २ सो वे मूसा से भगड़ा करके कहने लगे कि हमें पीने का  
 पानी दे मूसा ने उन से कहा तुम मुझ से क्यों भगड़ते  
 ३ हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो । फिर वहां लोगों  
 को पानी की जो प्यास लगी सो वे यह कहकर मूसा पर  
 कुड़कुड़ाये कि तू हमें लड़केवालों और पशुओं समेत  
 ४ प्यासों मार डालने को मिस्र से क्यों ले आया है । तब  
 मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और कहा इन लोगों से  
 मैं क्या करूँ ये तो मुझे पत्थरवाह करने को तैयार  
 ५ होने पर हैं । यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के पुर-  
 नियों में से किसी किसी को साथ ले अपनी उसी लाठी  
 को जिस से तू ने नील नदी<sup>१</sup> को मारा था हाथ में लिये  
 ६ हुए लोगों के आगे होकर चल । सुन मैं तेरे आगे जाके  
 उधर हेरिब पहाड़ की एक चटान पर खड़ा रहूंगा और  
 तू उस चटान पर मारना तब उस में से पानी निकलेगा  
 कि ये लोग पीएं । तब मूसा ने इस्राएल के पुरनियों के  
 ७ देखते बैठा ही किया । और मूसा ने उस स्थान का नाम  
 मस्सा<sup>२</sup> और मरीबा<sup>३</sup> रक्खा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां

(१) मूल में कौर । (२) अर्थात् परीक्षा । (३) अर्थात् भगवा ।

भगड़ा किया और यह कहकर यहोवा की परीक्षा भी  
 की कि क्या यहोवा हमारे बीच है वा नहीं ॥

(अमालेकियों पर विजय)

तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने  
 ८ लगे । और मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिये कई एक  
 ९ पुरुषों को छांटकर निकल और अमालेकियों से लड़ और  
 मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिये हुए टीले की चोटी  
 पर खड़ा रहूंगा । मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहांशू  
 १० अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर टीले  
 की चोटी पर चढ़ गये । और जब तक मूसा अपना हाथ  
 ११ उठाये रहता तब तक तां इस्राएल प्रबल होता था पर जब  
 जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था ।  
 और जब मूसा के हाथ भर गये तब उन्होंने ने एक पत्थर  
 १२ लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया  
 और हारून और हूर एक एक अलंग में उस के हाथों को  
 संभाले रहे, सो उस के हाथ सूर्य्य डूबने लौं स्थिर रहे ।  
 सो यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार  
 १३ के बल से हरा दिया । तब यहोवा ने मूसा से कहा स्मरण  
 १४ के लिये इस बात को पुस्तक में लिख दे और यहोशू को  
 सुना दे कि यहोवा अमालेक का स्मरण तक आकाश के  
 तले से पूरी रीति मिटा डालेगा । तब मूसा ने एक वेदी  
 १५ बनाकर उस का नाम यहोवानिस्सी<sup>४</sup> रक्खा, और कहा  
 १६ याह के मिहासन पर जो हाथ उठाया हुआ है इसलिये  
 यहोवा की लड़ाई अमालेकियों से पीढ़ी पीढ़ी में बनी रहेगी ॥

(मूसा के अपने ससुर से घेंट करने का वणन)

**१८. और** मूसा के ससुर मिद्यान के याजक

यित्री ने यह सुना कि परमेश्वर  
 ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिये क्या क्या  
 किया था अर्थात् यह कि किस रीति से यहोवा इस्राए-  
 लियों को मिस्र से निकाल ले आया । तब मूसा के ससुर  
 २ यित्री मूसा की स्त्री सिप्पोरा को जो पहिले नैहर मेज दी  
 गई थी, और उस के दोनों बेटों को भी ले आया इन में  
 ३ से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेशोम रक्खा था कि  
 मैं अन्यदेश में परदेशी हुआ हूँ । और दूसरे का नाम  
 ४ उस ने यह कहकर एत्तीएजेर<sup>५</sup> रक्खा कि मेरे पिता के  
 परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार  
 से बचाया । मूसा की स्त्री और बेटों को उस का ससुर  
 ५ यित्री संग लिये हुए उस के पास जंगल के उस स्थान में  
 आया जहां उस का डेरा पड़ा था वह तो परमेश्वर के  
 पर्वत के पास है । और आकर उस ने मूसा के पास यह  
 ६

(४) अर्थात् ईश्वर सहाय । (५) अर्थात् यहोवा मेरा ससुरा है ।

कहला भेजा कि मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों  
 ७ बेटों समेत तेरी स्त्री को तेरे पास ले आया हूँ । तब मूसा  
 अपने ससुर की भेंट के लिये निकला और उस को दंडवत्  
 करके चूमा और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे  
 ८ पर आ गये । वहाँ मूसा ने अपने ससुर से बर्णन किया  
 कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों  
 से क्या क्या किया और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या  
 कष्ट उठाया फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है ।  
 ९ तब यित्रो ने उस सारी भलाई के कारण जो यहावा ने  
 इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से  
 १० छुड़ाया था हुलसकर कहा धन्य है यहावा जिस ने तुम  
 का फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया जिस ने तुम  
 ११ लोगों को मिस्रियों की मुट्टी में से छुड़ाया है । अब मैं ने  
 जान लिया है कि यहावा सब देवताओं से बड़ा है वरन  
 उस विषय में भी जिस में उन्हीं ने इस्राएलियों से अभिमान  
 १२ किया था । तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिये  
 होमबलि और मेलबलि चढ़ाये और हारून इस्राएलियों  
 के भय पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमे-  
 १३ श्वर के आगे भोजन करने को आया । दूसरे दिन मूसा  
 लोगों का न्याय करने का बैठा और भोर से सांभ लों  
 १४ लोग मूसा के आसपास खड़े रहे । यह देखकर कि मूसा  
 लोगों के लिये क्या क्या करता है उस के ससुर ने कहा  
 यह क्या काम है जो तू लोगों के लिये करता है क्या  
 कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर  
 १५ से सांभ लों तेरे आसपास खड़े रहते हैं । मूसा ने अपने  
 ससुर से कहा इस का कारण यह है कि लोग मेरे पास  
 १६ परमेश्वर से पूछने आते हैं । जब जब उन का कोई  
 मुकद्दमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं  
 उन के बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और  
 १७ व्यवस्था उन्हें जताता हूँ । मूसा के ससुर ने उस से कहा  
 १८ जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं । और इस से तू  
 क्या वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय हार जाएंगे  
 क्योंकि यह काम तेरे लिये बहुत भारी है तू इसे अकेला  
 १९ नहीं कर सकता । सो अब मेरी सुन ले मैं तुझ को  
 सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे तू तो इन  
 लोगों के लिये परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इन के  
 २० मुकद्दमों को परमेश्वर के पास तू पहुँचा दिया कर । इन्हें  
 विधि और व्यवस्था प्रगट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें  
 चलना और जो काम इन्हें करना हो वह इन को जता  
 २१ दिया कर । फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को  
 छांट ले, जो गुणी और परमेश्वर का भय माननेहारे सच्चे  
 और अन्याय के लाभ से धिन करनेहारे हों और उन को

हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और दस दस मनुष्यों  
 पर प्रधान होने के लिये ठहरा दे । और वे सब समय २२  
 इन लोगों का न्याय किया करें और सब बड़े बड़े मुकद्दमों  
 को तो तेरे पास ले आया करें और छोटे छोटे मुकद्दमों  
 का न्याय आप ही किया करें; तब तेरा बोझ हलका  
 होगा क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे । यदि २३  
 तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझ को ऐसी आज्ञा  
 दे तो तू ठहर सकेगा और ये सारे लोग अपने स्थान को  
 कुशल से पहुँच सकेंगे । अपने ससुर की यह बात मान- २४  
 कर मूसा ने उस के सब वचनों के अनुसार किया । सो २५  
 उस ने सब इस्राएलियों में से गुणी गुणी पुरुष चुनकर  
 उन्हें हजार हजार सौ सौ पचास पचास दस दस लोगों  
 के ऊपर प्रधान ठहराया । और वे सब लोगों का न्याय २६  
 करने लगे जो मुकद्दमा कठिन होता उसे तो वे मूसा के  
 पास ले आते थे और सब छोटे मुकद्दमों का न्याय वे  
 आप ही करते थे । और मूसा ने अपने ससुर को बिदा २७  
 किया और उस ने अपने देश का मार्ग लिया ॥

(सीने पर्वत पर यहावा के दर्शन देने का वखन)

## १९. इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले

हुए जिस दिन तीन  
 महीने बीत चुके उसी दिन वे सीने के जंगल में  
 आये । और जब वे रफीदीम से कूच करके सीने के २  
 जंगल में आये तब उन्हां ने जंगल में डेरे खड़े किये  
 और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी की ।  
 तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और ३  
 यहोवा ने पर्वत पर से उस को पुकारकर कहा याकूब  
 के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों का मेरा यह  
 वचन सुना कि तुम ने देखा है कि मैं ने मिस्रियों से ४  
 क्या क्या किया और तुम को माना उकाब पक्षी के पंखों  
 पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ । सो अब यदि तुम ५  
 निश्चय मेरी मानोगे और मेरी बाचा का पालोगे तो सारे  
 लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे सारी पृथिवी  
 तो मेरी है । और तुम मेरे लेखे याजकों का राज्य और ६  
 पवित्र जाति ठहरोगे । जो बातें तुम्हें इस्राएलियों से कहनी  
 हैं वे ये ही हैं । तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों ७  
 को बुलवाया और ये सब बात जिन के कहने की आज्ञा  
 यहोवा ने उसे दी थी उन को समझा दी । और सब ८  
 लोग मिलकर बोल उठे जो कुछ यहोवा ने कहा है वह  
 सब हम करेंगे । लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को  
 सुनाई । तब यहोवा ने मूसा से कहा सुन मैं बादल के ९  
 आंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ इस लिये कि जब

मैं तुझ से बातें करू तब वे लोंग सुनें और सदा तेरी प्रतीति करें । और मूसा ने यहोवा से लोंगों की बातों का वर्णन किया । तब यहोवा ने मूसा से कहा लोंगों के पास जा और उन्हें आज और कल पाबत्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें । और वे तीसरे दिन लोंग तैयार हो रहें क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोंगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा । और तू लोंगों के लिये चारों ओर बाड़ा बांध देना और उन से कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उस के सिवाने को भी न छूओ और जो कोई पहाड़ को छूए वह निश्चय मार डाला जाए । उस को कोई हाथ से तो न छूए पर वह निश्चय पत्थरबाह किया जाए वा तीर से छेदा जाए चाहे पशु हो चाहे मनुष्य वह जीता न बचे । जब महाशब्दवाले नरसिंगे का शब्द देर लोंग सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए । तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोंगों के पास आकर उन को पाबत्र कराया और उन्होंने ने अपने वस्त्र धो लिये । और उस ने लोंगों से कहा तीसरे दिन लोंग तैयार हो रहेओ खी के पास न जाना । जब तीसरा दिन आया तब भोर हांते हांते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई, फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोंग थे सब कांप उठे । तब मूसा लोंगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिये छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए । और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था सो सारा पर्वत धूएँ से भर गया और उस का धूआं भट्टे का मा उठ रहा था और सारा पर्वत बहुत कांप रहा था । फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने बाणी सुनाकर उस को उत्तर दिया । और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया सो मूसा ऊपर चढ़ गया । तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर के लोंगों को चिता दे कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़के यहोवा के पास देखने को घुसें और उन में से बहुत नाश हो जाए । और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पाबत्र करें कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े । मूसा ने यहोवा से कहा वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते तू ने तो आप हम को यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पाबत्र रखो । यहोवा ने उस से कहा उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ पर याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आएँ न हो कि वह

उन पर टूट पड़े । ये ही बातें मूसा ने लोंगों के पास उतर के उन को सुनाई ।

(सारे श्लोपणियों को इस आशाओं के सुनाये जाने का वर्णन)

२०. तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे

दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निकाल लाया है ॥

तुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना ॥

तू अपने लिये कोई मूर्ति खोदकर न बनाना न

किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में वा पृथिवी पर वा

पृथिवी के जल में है । तू उन को दंडवत् न करना न उन

की उपसना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन

रखनेहारा ईश्वर हूँ और जो मुझ से बैर रखते हैं उन के

बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया

करता हूँ, और जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं

को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ ॥

अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना क्योंकि जो

यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उस को निर्दोष न

ठहराएगा ॥

विश्रामदिन को पाबत्र मानने के लिये स्मरण

रखना । छः दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम

काज करना । पर सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के

लिये विश्रामदिन है । उस में न तो तू किसी भांगि का

काम काज करना न तेरा बेटा न तेरी बेटा न तेरा दास

न तेरी दासी न तेरे पशु न कांडे परदेशी जो तेरे फाटकों

के भीतर हों । क्योंकि छः दिन में यहोवा ने आकाश

और पृथिवी और समुद्र और जो कुछ उन में हैं सब को

बनाया और सातवें दिन विश्राम किया इस कारण

यहोवा ने विश्रामदिन को आशिष दी और उस को

पाबत्र कराया ॥

अपने पिता और अपनी माता का आदर करना

जिस में जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उस

में तू बहुत दिन लोंग रहने पाए ॥

धन न करना ॥

अभचार न करना ॥

चांग न करना ।

किसी के बिरुद्ध झूठी साक्षी न देना ॥

किसी के घर का लालच न करना न तो किसी की

खी का लालच करना न किसी के दास दासी वा बैल

गर्भ का न किसी की किसी वस्तु का लालच करना ॥

आं. सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे

के शब्द सुनते आं. धूआं उठते हुए पर्वत को देखते

(१) वा झूठी बात पर ।

१६ रहे और देखके कांपकर दूर खड़े हो गये, और वे मूसा से कहने लगे तू ही हम से बातें कर तब तो हम सुन सकेंगे परन्तु परमेश्वर हम से बातें न करे न हो कि हम २० मर जाएं । मूसा ने लोगों से कहा डरो मत क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उस का भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप २१ न करो । और वे लोग तो दूर खड़े रहे पर मूसा उस घोर अधिकार के समीप गया जहां परमेश्वर था ॥

(मूसा से कही हुई यहावा की व्यवस्था)

२२ तब यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना कि तुम लोगों ने तो आप देखा है कि २३ मैं ने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं । तुम मेरे साथी जानकर कुछ न बनाना अपने लिये चान्दी व २४ सोने के देवताओं को न बनाना । मेरे लिये मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होमयति और मेलबलि उसी पर चढ़ाना । जहां २५ जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशिष दूंगा । और यदि तुम मेरे लिये पत्थरों की वेदी बनाओ, तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना क्योंकि जहां तुम ने उस पर अपना हथियार २६ उठाया तहां वह अशुद्ध हुई । और मेरी वेदी पर सीढ़ी से न चढ़ना न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े ॥

**२९. फिर** जो नियम तुम्हें उन को समझाने हैं सो ये हैं ॥

१ जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह छः बरस लो सेवा करता रहे और सातवें बरस स्वाधीन होकर ३ संतमंत चला जाए । यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए । और यदि स्त्री सहित आया हो तो उस के साथ उस की स्त्री भी चली जाए । यदि उस के स्वामी ने उस को स्त्री दी हो और वह उस के जन्माये बेटे वा बेटियां जनी हो तो उस की स्त्री और बालक ५ उस स्वामी के रहें और वह अकेला चला जाए । पर यदि वह दास हड़ता से कहे, कि मैं अपने स्वामी और अपनी स्त्री बालकों से प्रेम रखता हूं, सो मैं स्वाधीन ६ होकर न चला जाऊंगा तो उस का स्वामी उस को परमेश्वर के पास ले चले फिर उस को द्वार के किवाड़ वा बाजू के पास ले जाकर उस के कान में सुतारी से छेद करे तब वह सदा उस की सेवा करता रहे ॥

७ यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिये बेच ८ डाले तो वह दासों की नाह बाहर न जाए । यदि उस का स्वामी उस के अपनी स्त्री करे और फिर उस से

प्रसन्न न रहे तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे उस का विश्वासघात करने के पीछे उसे उपरी लोगों के हाथ बेचने का उस को अधिकार न होगा । और यदि उस ने ९ उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो, तो उस से बेटी का सा व्यवहार करे । चाहे वह दूसरी स्त्री कर ले तो भी वह १० उस का भोजन वस्त्र और संगति न घटाए । और यदि ११ वह इन तीन बातों में घटी करे तो वह स्त्री संतमंत बिना दाम चुके ही चली जाए ॥

जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए १२ वह निश्चय मार डाला जाए । यदि वह उस की घात में १३ न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उस के हाथ में पड़ गया हो ऐसे मारनेवाले के भागने के निमित्त मैं तेरे लिये स्थान ठहराऊंगा । पर यदि कोई ठिठई से १४ किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उस को मार डालने के लिये मेरी वेदी के पास से भी ले जाना ॥

जो अपने पिता वा माता का मारे पीटे सो निश्चय १५ मार डाला जाए ॥

जो किसी मनुष्य को चुराए चाहे उसे ले जाकर १६ बेच डाले चाहे वह उस के यहां पाया जाए तो वह निश्चय मार डाला जाए ॥

जो अपने पिता वा माता को कैसे सो निश्चय मार १७ डाला जाए ॥

यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर १८ वा मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं पर बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर १९ चलने फिरने लगे तब वह मारनेहारा निर्दोष ठहरे उस दशा में वह उस के पड़े रहने के समय की हानि तो भर दे और उस को भला चंगा भी करा दे ॥

यदि कोई अपने दास वा दासी को सोंटे से ऐसा २० मारे कि वह उस के मारने से मर जाए तब तो उस को निश्चय दण्ड दिया जाए । पर यदि वह दो एक दिन २१ जीता रहे तो उस के स्वामी को दण्ड न दिया जाए क्योंकि वह दास उस का धन है ॥

यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी २२ स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उस का गर्भ गिर जाए पर और कुछ हानि न हो तो मारनेहारे से उतना दण्ड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति विचारकों की सम्मति से ठहराए । पर यदि उस को और कुछ हानि २३ पहुंचे तो प्राण की सन्ती प्राण का, आंख की सन्ती आंख का, दांत की सन्ती दांत का, हाथ की सन्ती हाथ २४ का, पांव की सन्ती पांव का, दाग की सन्ती दाग का, घाव की सन्ती घाव का, मार की सन्ती मार का दण्ड हो ॥ २५



- २६ जब कोई अपने दास वा दासी की आंख पर ऐसा मारे कि फूट जाए तो वह उस की आंख की सन्ती उसे
- २७ स्वाधीन करके जाने दे । और यदि वह अपने दास वा दासी को मारके उस का दांत तोड़ डाले तो वह उस के दांत की सन्ती उसे स्वाधीन करके जाने दे ॥
- २८ यदि बैल किसी पुरुष वा स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए तो वह बैल तो निश्चय पत्थरवाह करके मार डाला जाए और उस का मांस खाया न जाए पर
- २९ बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे । पर यदि उस बैल की पहिले से सींग मारने की बान पड़ी हो और उस के स्वामी ने जताये जाने पर भी उस को न बांध रक्खा हो और वह किसी पुरुष वा स्त्री को मार डाले तब तो वह बैल पत्थरवाह किया जाए और उस का स्वामी भी
- ३० मार डाला जाए । यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जां कुछ उस के लिये ठहराया जाए
- ३१ उसे उतना ही देना पड़ेगा । चाहे बैल ने किसी के बेटे को चाँद बेटा को मारा हो तो भी इसी नियम के अनु-
- ३२ सार उस के स्वामी से किया जाए । यदि बैल ने किसी दास वा दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को तीस शेकेल रूपा दे और वह बैल पत्थरवाह किया जाए ।
- ३३ यदि कोई मनुष्य गड़हा ग्वालकर वा खादकर उस को न ढाँपे और उम में किसी का बैल वा गदहा गिर
- ३४ पड़े, तो जिस का वह गड़हा हो वह उस हानि का भर दे, वह पशु के स्वामी को उस का म ल दे और लांथ गड़हेवाले की ठहरे ॥
- ३५ यदि किसी का बैल दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उस का मोल आपस में आधा आधा बाँट लें
- ३६ और लोथ को भी वैसा ही बाँटें । पर यदि यह प्रगट हो कि उस बैल की पहिले से सींग मारने की बान पड़ी थी पर उस के स्वामी ने उसे बांध नहीं रक्खा तो निश्चय यह बैल की सन्ती बैल भर दे पर लोथ उसी की ठहरे ॥

**२२. यदि कोई मनुष्य बैल वा भेड़ वा बकरी चुराकर उस का घात करे वा बेच**

- डाले तो वह बैल की सन्ती पाँच बैल और भेड़ बकरी वः सन्ती चार भेड़ बकरी भर दे । यदि चोर सेंध मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उस के खून का दोष न लगे । यदि सूर्य निकल चुके तो उस के खून का दोष लगे अवश्य है कि वह हानि का भर दे और यदि उस के पास कुछ न हो तो वह चोरी के कारण बेचा जाए । यदि चुराया हुआ बैल

वा गदहा वा भेड़ वा बकरी उस के हाथ में जीती पाई जाए तो वह उस का दूना भर दे ॥

यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत वा दाख की बारी चराए अर्थात् अपने पशु का ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे ॥

यदि कोई आग बाने और वह कांटों में से लगे कि पूर्ण के ढेर वा अनाज वा खड़ा खेत जल जाए तो जिस ने आग बारी हो सो हानि को निश्चय भर दे ॥

यदि कोई दूसरे को रुपए वा सामग्री की धरोहर धरे और वह उस के घर से चुराई जाए तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा । और यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर<sup>१</sup> के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाय कि उस ने अपने भाई-बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है वा नहीं । अपराध चाहे बैल चाहे गदहे चाहे भेड़ वा बकरी चाहे बख चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय क्यों न लगाया जाए, जिसे दो जन अपनी अपनी कहते हों तो दोनों का मुकद्दमा परमेश्वर<sup>१</sup> के पास आए और जिस को परमेश्वर दोषी ठहराए<sup>२</sup> वह दूसरे का दूना भर दे ॥

यदि कोई दूसरे को गदहा वा बैल वा भेड़ बकरी वा कोई और पशु रखने के लिये सौंपे और किसी के बिन देखे वह मर जाए वा चोट खाए वा हांक दिया जाए तो उन दोनों के बीच यहोवा की किरिया खिलाई जाए कि मैं ने इस की संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया तब संपत्ति का स्वामी इस को सच माने और दूसरे को उस कुछ भर देना न होगा । यदि वह सचमुच उस के यहां से चुराया गया हो तो वह उस के स्वामी को उसे भर दे । और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिये ले आये तब उसे उस का भर देना न पड़ेगा ॥

फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उस के स्वामी के संग न रहते उस का चोट लगे वा वह मर जाए तो वह निश्चय उस की हानि भर दे । यदि उस का स्वामी मंग हो तो दूसरे को उस की हानि भरना न पड़े और यदि वह भाड़े का हो तो उस की हानि उस के भाड़े में आ गई ॥

यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिस के ब्याह की बात न लगी हो फुसलाकर उस के संग कुकर्म करे तो वह निश्चय उस का मोल देके उसे ब्याह ले । पर यदि उस का पिता उसे देने को बिलकुल नाह करे तो कुकर्म करनेवाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपए तौल दे ।

(१) वा न्यायियों । (२) वा न्यायी दोषी ठहराए ।

- १८ डाइन को जीती रहने न देना ॥  
 १९ जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए ॥  
 २० जो कोई यहोवा को छोड़ किसी देवता के लिये  
 २१ बलि करे वह सत्यानाश किया जाए । और परदेशी के  
 न सताना और न उस पर अंधेर करना क्योंकि मिस्र देश  
 २२ में तुम भी परदेशी थे । किसी विधवा वा बपमुए बालक  
 २३ को दुःख न देना । यदि तुम ऐसां को किसी प्रकार का  
 दुःख दो और वे कुछ भी मेरी दोहाई दें तो मैं निश्चय  
 २४ उन की दाहाई सुनूंगा । तब मेरा कोप भड़केगा और मैं  
 तुम को तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी स्त्रियां विधवा  
 और तुम्हारे बालक बपमुए हो जाएंगे ॥  
 २५ यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास  
 रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उस से महाजन की नाह  
 २६ न्याज न लेना । यदि तू कभी अपने भाईबंधु के वस्त्र  
 को बंधक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने लों  
 २७ उस को फेर देना । क्योंकि वह उस का एक ही ओढ़ना  
 है उस का देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह  
 किसे ओढ़ कर सोएगा, सो जब वह मेरी दोहाई देगा  
 तब मैं उस की सुनूंगा क्योंकि मैं तो करुणामय हूँ ।  
 २८ परमेश्वर को न कोसना और न अपने लोगों के  
 २९ प्रधान को क्षाप देना । अपने खेतों की उपज और फलों  
 के रस में से कुछ मुझे देने में वलम्ब न करना । अपने  
 ३० बेटों में से पहिलौटे को मुझे देना । वैसे ही अपनी गायों  
 और मेड़ बकरियों के पहिलौटे भी देना, सात दिन लों तो  
 बच्चा अपनी माता के संग रहे और आठवें दिन तू उसे  
 ३१ मुझ को देना । और तुम मेरे लिये पवित्र मनुष्य होना  
 इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उस  
 का मांस न खाना उस को कुत्तों के आगे फेंक देना ॥

**२३. भूमी** बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी  
 होकर दुष्ट का साथ न देना । बुराई

- २ करने के लिये न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उन  
 के पीछे फिरके मुकद्दमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना ।  
 ३ और कंगाल के मुकद्दमे में उस का भी पक्ष न करना ॥  
 ४ यदि तेरे शत्रु का बैल वा गदहा भटकता हुआ तुम्हें  
 ५ मिले तो उसे उस के पास अवश्य फेर ले आना । फिर  
 यदि तू अपने बैरी के गदहे को बोझ के मारे दबा हुआ  
 देखे तो चाहे उस को उस के स्वामी के लिये छुड़ाना तेरा  
 जी न चाहता हो तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर  
 उसे छुड़ाना ॥  
 ६ तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उस के मुकद्दमे में  
 ७ न्याय न बिगाड़ना । झूठे मुकद्दमे से दूर रहना और

(१) वा न्यायियों ।

निर्दोष और धर्मी को घात न करना क्योंकि मैं दुष्ट को  
 निर्दोष न ठहराऊंगा । घूस न लेना क्योंकि घूस देखने-  
 हारों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें मोड़  
 देता है । परदेशी पर अंधेर न करना तुम तो परदेशी के  
 मन की जानते हो क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे ॥

छः बरस तो अपनी भूमि में बोनो और उस की  
 उपज इकट्ठी करना । पर सातवें बरस में उस को पड़ती  
 रहने देना और वैसे ही छोड़ देना सो तेरे भाईबंधुओं में  
 के दरिद्र लोग उस से खाने पाएं और जो कुछ उन से  
 भी बचे वह बनैले पशुओं के खाने के काम आए । और  
 अपनी दाख और जलपाई की बारियों को भी ऐसे ही  
 करना । छः दिन ता अपना काम काज करना और सातवें  
 दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल और गदह सुस्ताएं और  
 तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर  
 सकें । और जो कुछ मैं ने तुम से कहा है उस में साव-  
 धान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न  
 करना बरन वे तुम्हारे मुंह से भी निकलने न पाएं ॥

बरस दिन में तीन बार मेरे लिये पर्व मानना ।  
 अश्वमीरी रोटी का पर्व मानना उस में मेरी आज्ञा के अनु-  
 सार आबीब महीने के नियत समय पर सात दिन लों  
 अश्वमीरी रोटी खाया करना क्योंकि उसी महीने में तुम  
 मिस्र से निकल आए । और मुझ को कोई छूछे हाथ अपना  
 मुंह न दिखाए और जब तेरी कोई खेती की पहिली उपज  
 तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना और बरस के अन्त  
 पर जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब  
 बटोरन का पर्व मानना । बरस दिन में तीनों बार तेरे  
 सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना अपना मुंह दिखाएं ॥

मेरे बलिपशु का लोहू खमीरी रोटी के संग न  
 चढ़ाना और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ  
 बिहान लों रहने देना । अपनी भूमि की पहिली उपज का  
 पहिला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना ।  
 बकरी का बच्चा उस की माता के दूध में न सिभाना ॥  
 सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग  
 में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैं ने तैयार किया  
 है उस में तुम्हें पहुंचाएगा । उस के साम्हने सावधान  
 रहना और उस की मानना उस का विरोध न करना क्योंकि  
 वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा इसलिये कि उस में  
 मेरा नाम रहता है । और यदि तू सचमुच उस की माने  
 और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु  
 और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा । इस रीति मेरा दूत  
 तेरे आगे आगे चलकर तुम्हें एमोरी, हित्ती, परजी, कनानी,

(२) मूल में की चर्ची ।

हिष्वी और यबूसी लोगों के यहां पहुंचाएगा और मैं उन  
 २४ को सत्यानाश कर डालूंगा । उन के देवताओं के दंडवत्  
 न करना और न उन की उपासना करना न उन के  
 से काम करना वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश  
 कर डालना और उन लोगों की लाठों को टुकड़े टुकड़े  
 २५ कर देना । और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना  
 करना तब वह तेरे अब जल पर आशियप देगा और तेरे  
 २६ बीच में से रोग दूर करेगा । तेरे देश में न तो किसी का  
 गर्भ गिरेगा और न कोई बाँझ होगा और तेरी आयु में  
 २७ पूरी करूंगा । जितने लोगों के बीच तू जाय उन सभी  
 के मन में मैं अपना भय पहिले से ऐसा समवा दूंगा कि  
 उन को ब्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की  
 २८ पीठ दिखाऊंगा । और मैं तुझ से पहिले बरों को भेजूंगा  
 जो हिष्वी, कनानी और हिस्ती लोगों को तेरे साम्हने मे  
 २९ भगाके दूर कर दूँगी । मैं उन को तेरे आगे से एक ही  
 बरस में तो न निकाल दूंगा न हो कि देश उजाड़ हो  
 ३० जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुःख देने लगें । जब  
 लों तू फूल फलकर देश को अपने अधिकार में न कर ले  
 तब लों मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालना  
 ३१ रूँगा । मैं लाल समुद्र से लेकर पलिशितयो के समुद्र  
 लों और जंगल से लेकर महानद लों के देश को तेरा  
 कर दूंगा मैं उस देश के निवासियों को तेरे बश कर  
 दूंगा और तू उन्हें अपने साम्हने से बरबस निकालेगा ।  
 ३२ तू न तो उन से वाचा बांधना और न उन के देवताओं  
 ३३ से । वे तेरे देश में रहने न पाएँ न हो कि वे तुझ से  
 मेरे विरुद्ध पाप कराएँ क्योंकि यदि तू उन के देवताओं  
 की उपासना करे तो यह तेरे लिये फंदा बनेगा ।  
 (यहोवा और इस्राएलियों के बीच वाचा बांधने का यणन)

**२४. फिर** उस ने मूसा से कहा तू हारून नादाब  
 अबीहू और इस्राएलियों के सत्तर पुर-

नियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दण्डवत्  
 २ करना । और केवल मूसा यहोवा के समीप आएँ, वे  
 समीप न आएँ, दूसरे लोग उस के संग ऊपर न आएँ ।  
 ३ तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें  
 और सब नियम सुना दिये तब सब लोग एक स्वर से  
 बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही हैं तब  
 ४ हम मानेंगे । तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख  
 दिरे और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक  
 वेदी और इस्राएल के बारहों गोत्रों के अनुसार बारह  
 ५ खंभे भी बनवाये । तब उस ने कई इस्राएली जवानों को  
 भेजा जिन्होंने यहोवा के लिये होमबलि और बैलों के  
 ६ मेलबलि चढ़ाये । और मूसा ने आधा लाहू तो लेकर

कटारों में रक्खा और आधा वेदी पर छिड़क दिया । तब ७  
 वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया उसे  
 सुनकर उन्होंने ने कहा जो कुछ यहोवा ने कहा है उस  
 सब को हम करेंगे और उस की आज्ञा मानेंगे । तब ८  
 मूसा ने लाहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उन  
 से कहा देखो यह उस वाचा का लाहू है जिसे यहोवा  
 ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बाँधी है । तब मूसा, ९  
 हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के सत्तर पुरनिये १०  
 ऊपर गये और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया  
 और उस के चरणों के तल नीलमणि का चबूतरा सा  
 कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था । और ११  
 उस ने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया सो  
 उन्होंने ने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया ॥

तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास १२  
 चढ़कर वहां रह और मैं तुझे पत्थर की पाँटियाँ और  
 अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उन  
 को सिखाए । सो मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत १३  
 परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया । और पुरनियों से वह १४  
 यह कह गया कि जब लों हम तुम्हारे पास फिर न आएँ  
 तब लों तुम यहीं हमारी बाट जोहते रहो और सुनो  
 हारून और हूर तुम्हारे संग हैं सो यदि किसी का मुका-  
 हमा हो तो उन्हीं के पास जाए । तब मूसा पर्वत पर १५  
 चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया । तब १६  
 यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह  
 बादल उस पर छः दिन लों छाया रहा और सातवें दिन  
 उस ने मूसा को बादल के बीच से बुलाया । और १७  
 इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर  
 प्रचण्ड आग सा देख पड़ता था । सो मूसा बादल के १८  
 बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत  
 पर चालीस दिन और चालीस रात रहा ॥

(सामान सहित पवित्र स्थान के बनाने की आज्ञाप)

**२५. यहोवा** ने मूसा से कहा, इस्राएलियों २  
 ने यह कहना कि मेरे लिये भेंट  
 ली जाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सभी  
 से मेरी भेंट लेना । और जिन वस्तुओं की भेंट उन से ३  
 लेनी है वे ये हैं अर्थात् सोना, चाँदी, पीतल, नीर ४  
 बैजनी और लाही रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा,  
 बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई भेड़ों की खालें ५  
 सूइयों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाने के लिये ६  
 तेल अभिषेक के तेल के लिये और सुगन्धित धूप के लिये  
 सुगन्ध द्रव्य, एपोद और चपरस के लिये सुलैमानी ७  
 पत्थर और जड़ने के लिये भाण । और वे मेरे लिये एक ८

- ९ पवित्रस्थान बनाएं कि मैं उन के बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अर्थात् निवासस्थान और उस के सब सामान का नमूना उसी के समान तुम लोग उसे बनाना ॥
- १० बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए उस की लंबाई अट्ठाईस हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई डेढ़ डेढ़ हाथ की हों। और उस को चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। और सोने के चार कड़े ढलवाकर उस के चारों पायों पर एक अलंग दो कड़े और दूसरी अलंग भी दो कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डरडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना। और डरडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना कि उन के बल संदूक उठाय जाय। वे डरडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उस से अलग न किये जाएं। और जो साक्षीपत्र मैं तुम्हें दूंगा, उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित्त का ढकना बनवाना, उस की लंबाई अट्ठाईस हाथ और चौड़ाई डेढ़ हाथ की हो। और सोना गढ़ाकर दो करुब बनवाकर प्रायश्चित्त के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करुब तो एक सिरे और दूसरा करुब दूसरे सिरे पर लगवाना और करुबों को और प्रायश्चित्त के ढकने को एक ही टुकड़े के बनाकर उस के दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करुबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बनें कि प्रायश्चित्त का ढकना उन से दृढ़ रहें और उन के मुख आम्हने साम्हने और प्रायश्चित्त के ढकने की ओर रहें। और प्रायश्चित्त के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षीपत्र मैं तुम्हें दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। और मैं उस के ऊपर रहके तुम्हें से मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिये जितनी आज्ञाएं मुझ को तुम्हें देनी होंगी उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर से और उन करुबों के बीच में से जो साक्षीपत्र के संदूक पर होंगे तुम्हें से वार्ता किया करूंगा ॥
- २३ फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना उस का लंबाई दो हाथ चौड़ाई एक हाथ और ऊंचाई डेढ़ हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उस के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। और उस के चारों ओर चार अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। और सोने के चार कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उस के चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घरे का काम दें कि मेज
- (१) मूल में मैं बड़ा।

उन्हीं के बल उठाई जाए। और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए। और उस पर के परात और धूपदान और करवे और उंडेलने के कटारे सब चोखे सोने के बनवाना। और मेज पर तू मेरे आगे भेंट की गेटियां नित्य रखाना ॥

फिर चोखे सोने का एक दीवट बनवाना सोना गढ़ाकर वह दीवट पाये और डरडी सहित बनाया जाए उस के पुष्पकोश गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के हों। और उस की अलंगों से छः डालियां निकले तीन डालियां तो दीवट की एक अलंग से और तीन डालियां उस की दूसरी अलंग से निकले। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे तीन तीन पुष्पकोश एक एक गांठ और एक एक फूल हों। दीवट से निकली हुई छहों डालियों का यही ढब हो। और दीवट की डरडी में बादाम के फूल के सरीखे चार पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हों। और दीवट से निकली हुई छहों डालियों में से दो दो डालियों के नीचे एक एक गांठ हो वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के हों। उन की गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़ा हों चोखा सोना गढ़ाकर सारा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना। और सात दीपक बनवाना और दीपक बाने जाय कि वे दीवट के साम्हने प्रकाश दें। और उस के गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हों। वह सब इस सारे सामान समेत किष्कार भर चोखे सोने का बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुम्हें इस पर्वत पर दिखाया जाता है ॥

**२६. फिर** निवासस्थान के लिये दस पटों के।

बनवाना इन को बटी हुई सनीवाले और नीले बेंजनी और लाही रंग के कपड़े का कटाई के काम किये हुए करुबों के साथ बनवाना। एक एक पट की लंबाई अट्ठाईस हाथ और चौड़ाई चार हाथ की हों सब पट एक ही नाप के हों। पांच पट एक दूसरे से जोड़े हुए हों और फिर जो पांच पट रहेंगे वे भी एक दूसरे से जोड़े हुए हों। और जहां वे दोनों पट जोड़े जाएं वहां की दोनों छोरों पर नीली नीली फालियां लगवाना। दोनों छोरों में पचास पचास फालियां ऐसे लगवाना कि वे आम्हने साम्हने हों। और सोने के पचास अंकड़े बनवाना और पटों के पंचों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवासस्थान मिलकर एक ही हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिये बकरी के बाल के ग्यारह पट बनवाना। एक एक पट की लंबाई तीस हाथ और चौड़ाई चार हाथ की हो ग्यारहों

- १ पट एक ही नाप के हों । और पांच पट अलग और फिर छः पट अलग जुड़वाना और छठवें पट को तंबू के
- १० साम्हने मोड़वाना । और जहां पांच और छक्का दोनों जोड़े जाएं वहां की दोनों छोरों में पचास पचास फलियां
- ११ लगवाना । और पीतल के पचास अंकड़े बनवाना और अंकड़ों को फलियों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना
- १२ कि वह मिलकर एक ही हो जाए । और तंबू के पटों का लटका हुआ भाग अर्थात् जो आधा पट रहेगा वह निवास
- १३ की पिछली ओर लटका रहे । और तंबू के पटों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के टापने के लिये उस की दोनों अलंगों पर लटका हुआ
- १४ रहे । फिर तंबू के लिये लाल रंग से रंगी हुई मट्टों की खालों का एक अंकार और उस के ऊपर सूइसों की खालों का भी एक अंकार बनवाना ॥
- १५ फिर निवास के लिये बबूल की लकड़ी के तखते खड़े
- १६ रहने को बनवाना । एक एक तखते की लम्बाई दस हाथ
- १७ और चौड़ाई डेढ़ हाथ की हो । एक एक तखते में एक दूसरे से जोड़ी हुई दो दो चूलों हो, निवास के मध्य तखतों
- १८ को इसी भाँति से बनवाना । और निवास के लिये जो तखते तू बनवाएगा उन में से बीस तखते तो दक्खिन ओर
- १९ के लिये हों । और बीसों तखतों के नीचे चांदी की चालीस कुर्सियां बनवाना अर्थात् एक एक तखते के नीचे उस के
- २० चूलों के लिये दो दो कुर्सियां । और निवास की दूसरी
- २१ अलंग अर्थात् उत्तर ओर बीस तखते बनवाना । और उन के लिये चांदी की चालीस कुर्सियां बनवाना अर्थात्
- २२ एक एक तखते के नीचे दो दो कुर्सियां हों । और निवास की पिछली अलंग अर्थात् पच्छिम ओर के लिये छः तखते
- २३ बनवाना । और पिछली अलंग में निवास के कोनों के
- २४ लिये दो तखते बनवाना । और ये नीचे से दो दो भाग के हों और दोनों भाग ऊपर के सिरे लों एक एक कड़े में मिलाये जाएं, दोनों तखतों का यही ढब हो, ये तो
- २५ दोनों कोनों के लिये हों । और आठ तखते हों और उन की चांदी की सोलह कुर्सियां हों अर्थात् एक एक तखते
- २६ के नीचे दो दो कुर्सियां हों । फिर बबूल की लकड़ी के बने बनवाना अर्थात् निवास की एक अलंग के तखतों के
- २७ लिये पांच और निवास की दूसरी अलंग के तखतों के लिये पांच बेंड़े और निवास की जो अलंग पच्छिम ओर पिछले भाग में होगी उस के लिये पांच बेंड़े बनवाना ।
- २८ और बीचवाला बेंड़ा जो तखतों के मध्य में होगा
- २९ वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे लों पहुंचे । फिर तखतों को सोने से मढ़वाना और उन के कड़े जो बेंड़ों के घेरे का काम देंगे उन्हें भी सोने से बनवाना और बेंड़ों को

भी सोने से मढ़वाना । और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुम्हें दिखाया जाता है ॥

फिर नीले बैजनी और लाही रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले कपड़े का एक बीचवाला पर्दा बनवाना वह कढ़ाई के काम किये हुए करूबों के साथ बने । और उस को सोने से मढ़े हुए बबूल के चार खंभों पर लटकाना इन की अंकड़ियां सोने की हों और ये चांदी की चार कुर्सियों पर खड़ी रहें । और बीचवाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उस की आड़ में साक्षीपत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना सो वह बीचवाला पर्दा तुम्हारे लिये पवित्रस्थान का परमपवित्रस्थान से अलग किये रहे । फिर परमपवित्रस्थान में साक्षीपत्र के संदूक पर प्रायश्चित्त के टकने का रखना । और उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग मेज का रखना और उस की दक्खिन अलंग मेज के साम्हने दीवट का रखना । फिर तंबू के द्वार के लिये नीले बैजनी और लाही रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना । और इस पर्दे के लिये बबूल के पांच खंभे बनवाना और उन को सोने से मढ़वाना उन की अंकड़ियां सोने की हों और उन के लिये पीतल की पांच कुर्सियां ढलवाना ॥

## २७. फिर वेदी का बबूल का लकड़ी की पांच

हाथ लम्बा और पांच हाथ चौड़ी बनवाना, वेदी चौकार हो और उस की ऊंचाई तीन हाथ की हो । और उस के चारों कोनों पर चार सींग बनवाना वे उस समत एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल से मढ़वाना । और उस की राख उठाने के पात्र और फावड़ियां और कटोरे और कांटे और कण्डे बनवाना उस का यह सारा सामान पीतल का बनवाना । और उस के लिये पीतल की जाली की एक भूभरी बनवाना और उस के चारों सिरों में पीतल के चार कड़े लगवाना । और उस भूभरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य लों पहुंचे । और वेदी के लिये बबूल का लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना । और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उस की दोनों अलंगों पर रहे । वेदी को तखतों से खाखली बनवाना जैसी वह इस पर्वत पर तुम्हें दिखाई जाती है वैसी ही बनाई जाए ॥

फिर निवास के आगन को बनवाना उस की दक्खिन अलंग के लिये तो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाकर उस की लम्बाई सौ हाथ की हो एक अलंग पर तो इतना ही हो । और उन के बीस खंभे बनें और इन के लिये पीतल की बीस कुर्सियां भी बनें

और खंभों की अंकड़ियां और उन के जोड़ने की छड़ें  
 ११ चांदी की हों। और उसी भांति आंगन की उत्तर अलंग  
 की लंबाई में भी सौ हाथ लंबे पर्दे हों और उन के भी  
 बीस खंभे और इन के लिये भी पीतल की बीस कुसियां  
 हों और उन खंभों की भी अंकड़ियां और छड़ें चांदी की  
 १२ हों। फिर आंगन की चौड़ाई में पच्छिम ओर पचास हाथ  
 के पर्दे हों उन के खंभे दस और कुसियां भी दस हों।  
 १३ और पूरब अलंग पर भी आंगन की चौड़ाई पचास हाथ  
 १४ की हो। और आंगन के द्वार की एक ओर पन्द्रह हाथ  
 के पर्दे हों और उन के खंभे तीन और कुसियां भी तीन  
 १५ हों। और द्वार की दूसरी ओर भी पंद्रह हाथ के पर्दे हों  
 १६ उन के भी खंभे तीन और कुसियां तीन हों। और आंगन  
 के द्वार के लिये एक पर्दा बनवाना जो नीले बैजनी और  
 लाही रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े  
 का कारखोब का बनाया हुआ बीस हाथ का हो उस के  
 १७ खंभे चार और कुसियां भी चार हों। आंगन की चारों  
 ओर के सब खंभे चांदी की छड़ों से जुड़े हुए हों उन की  
 १८ अंकड़ियां चांदी की और कुसियां पीतल की हों। आंगन  
 की लंबाई सौ हाथ की और उस की चौड़ाई बराबर  
 पचास हाथ और उस की कनात की ऊंचाई पांच हाथ की  
 हो उस की कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने  
 १९ और खंभों की कुसियां पीतल की हों। निवास के भांति  
 भांति के बरतने का सब सामान और उस के सब खंटे  
 और आंगन के भी सब खंटे पीतल ही के हों।

२० फिर तू इस्राएलियों का आज्ञा देना कि मेरे पास  
 दीवट के लिये कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल  
 २१ तेल ले आना जिस से दीपक नित्य बरा' करे। मिलाप  
 के तंबू में उस बीचवाले पर्दे से बाहर जो साक्षीपत्र के  
 आगे होगा हारून और उस के पुत्र दीवट सांभ से भोर  
 लों यहोवा के साम्हने सजा रखें यह इस्राएलियों के लिये  
 पीढ़ी पीढ़ी लों सदा को विधि ठहरे ॥

(याजकों के पवित्र वस्त्र बनाने और उन के संस्कार होने की आज्ञाएं)

२८. फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून  
 और नादाब अबीहू एलाजार और  
 ईतामार नाम उस के पुत्रों को अपने समीप ले आना  
 २ कि वे मेरे लिये याजक का काम करें। और तू अपने  
 भाई हारून के लिये विभव और शोभा के निमित्त पवित्र  
 ३ वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है जिन  
 को मैं ने बुद्धि देनेहारे आत्मा से परिपूर्ण किया है उन  
 को तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे  
 ४ निमित्त याजक का काम करने के लिये पवित्र बने। और

(१) मूल में चढ़ा।

जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं अर्थात् चपरास एपोद  
 वागा चारखाने का अंगरखा पगड़ी और फेंटा ये ही  
 पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उस के पुत्रों के लिये  
 बनाये जाएं कि वे मेरे लिये याजक का काम करें। और  
 वे सोने और नीले और बैजनी और लाही रंग का और  
 सूक्ष्म सनी का कपड़ा लें ॥

और वे एपोद को बनाएं वह सोने का और नीले  
 बैजनी और लाही रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म  
 सनी के कपड़े का बने, उस की बनावट कढ़ाई के काम  
 की हो। उस के दोनों सिरों में जोड़े हुए दोनों कंधों पर  
 के बन्धन हों इसी भांति वह जोड़ा जाए। और एपोद  
 पर जो काठा हुआ पटुका होगा उस की बनावट उसी  
 के समान हो और वे दोनों बिना जोड़ के हों और सोने  
 और नीले बैजनी और लाही रंगवाले और बटी हुई  
 सूक्ष्म सनीवाले कपड़े के हों। फिर दो सुलैमानी मणियां  
 ९ लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उन  
 १० के नामों में से छः तो एक मणियां पर और शेष छः नाम  
 दूसरे मणियां पर इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार  
 खुदवाना। मणियां खोदनेहारे के काम से जैसे छाप  
 ११ खोदा जाता है वैसे ही उन दों मणियों पर इस्राएल के  
 पुत्रों के नाम खुदवाना और उन को सोने के खानों में  
 १२ जड़ाना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर  
 लगवाना वे इस्राएलियों के निमित्त स्मरण करानेहारे  
 मणियां ठहरेंगे अर्थात् हारून उन के नाम यहोवा के आगे  
 अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिये उठाये रहे ॥

फिर सोने के खाने बनवाना। और डोरियों की नाइ १३ १४  
 गूथे हुए दो तोड़े चोखे सोने के बनवाना और गूथे हुए  
 तोड़ों को उन खानों में जड़ाना। फिर न्याय की चपरास  
 १५ को भी कढ़ाई के काम का बनवाना एपोद की नाइ सोने  
 और नीले बैजनी और लाही रंग के और बटी हुई सूक्ष्म  
 सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरा  
 १६ हो और उस की लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की  
 हों। और उस में चार पांति मणियां जड़ाना, पहिली पांति  
 १७ में तो माणिक्य पद्मराग और लालड़ी हों। दूसरी पांति  
 १८ में मरकत नीलमणियां और हीरा, तीसरी पांति में लशम  
 १९ सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पांति में फीरोजा सुलै-  
 २० मानी मणियां और यशब हों ये सब सोने के खानों में जड़े  
 जाएं। और इस्राएल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने  
 २१ मणियां हों अर्थात् उन के नामों की गिनती के अनुसार  
 बारह नाम खुदें बारहों गोत्रों में से एक एक का नाम  
 एक एक मणियां पर ऐसे खुदे जैसे छाप खोदा जाता है।  
 फिर चपरास पर डोरियों की नाइ गूथे हुए चोखे सोने २२

- २३ के तोंड़ लगवाना । और चपरास में सोने की दां कड़ियां लगवाना और दोनों कड़ियां का चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना । और सोने के दोनों गूँथे तोंड़ों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना ।
- २५ और गूँथे हुए दोनों तोंड़ों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़ाके एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उस के साम्हने लगवाना । फिर सोने की दो आर कांडियां बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उस की उस केर पर जो एपोद की भीतरवार होगी लगवाना । फिर उन के सिवाय सोने की दो और कड़ियां बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उस के साम्हने पर और उस के जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पट्टके के ऊपर लगवाना । और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद का कड़ियों में नीले फीते से बान्धी जाए इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पट्टके पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए । और जब जब हारून पवित्रस्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर हस्ताएलियों के नामों को उठाये रहे जिस से यहावा के साम्हने उन का स्मरण नित्य रहे । और तृन्शाय की चपरास में ऊरीम<sup>१</sup> और तुम्माम<sup>२</sup> को रखना और जब जब हारून यहावा के साम्हने प्रवेश करे तब तब वे उस के हृदय के ऊपर ही सो हारून हस्ताएलियों के न्यायपदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहावा के साम्हने नित्य उठाये रहे ॥
- ३१ फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना । और उस की बनावट ऐसी हो कि उस के बीच में सिर डालने के लिये छेद हो और उस छेद का चांग और बखतर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए । और उस के नीचेवाले घेरे में चांग और नीले बैजनी और लाही रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उन के बीच बीच चारों और सोने की घंटियां लगवाना । अर्थात् एक सोने की घंटी और एक अनार फिर एक सोने की घंटी और एक अनार इसी रीति बागे के नीचेवाले घेरे में चारों और हो । और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्रस्थान के भीतर यहावा के साम्हने जाए वा बाहर निकले तब तब उस का शब्द सुनाई दे नहीं तो वह मर जाएगा ॥
- ३६ फिर चाँखे सोने का एक टीका बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उस में ये अक्षर खाँदे जाएं अर्थात् यहावा के लिये पवित्र, और उसे नीले फीते पर बांधना और वह पगड़ी के साम्हने पर रहे । सो वह हारून के

(१) अर्थात् उरीतिया । (२) अर्थात् पूर्णताप ।

माथे पर रहे इसलिए कि हस्ताएली जो कुछ पवित्र ठहराए अर्थात् जितनी पवित्र भेंटें करें उन पवित्र वस्तुओं का दाष हारून उठाये रहे और वह नित्य उस के माथे पर रहे जिस से यहावा उन से प्रसन्न रहे ॥

और अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का और चारखानेवाला बुनाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और कारखोबी काम किया हुआ एक फेंटा भी बनवाना ॥

फिर हारून के पुत्रों के लिये भी अंगरखे और फेंटे और टोपियां बनवाना ये वस्त्र भी विभव और शोभा के लिये बनें । अपने भाई हारून और उस के पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उन का अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिये याजक का काम करे । और उन के लिये सनी के कपड़े की जाँघिया बनवाना जिन से उन का तन ठंपा रहे वे कटि से जाँघ लों की हो । और जब जब हारून वा उस के पुत्र मिलापवाले तंबू में प्रवेश करें वा पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं तब तब वे उन जाँघियों को पहिने रहें न हां कि वे दाँष उठाकर मर जाएं यह हारून के लिये और उस के पीछे उस के वंश के लिये भी सदा की विधि उहरे ॥

२९ और उन्हें पवित्र करने का जो काम तुम्हें उन से करना है कि वे

मेरे लिये याजक का काम करे सो यह है कि एक निर्दोष बड़ड़ा और दो निर्दोष मेढे लेना । और अखमीरी रींटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपांडियां भी लेना ये सब गोहूँ के मैदे के बनवाना । इन का एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बड़ड़े और उन दोनों मेढों समेत समीप ले आना । फिर हारून और उस के पुत्रों को मिलापवाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना । तब उन वस्त्रों को लेकर हारून का अंगरखा और एपोद का बागा पहिनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टका भी बांधना । और उस के सिर पर पगड़ी का रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट का रखना । तब अभिषेक का तेल ले उस के सिर पर डाल कर उस का अभिषेक करना । फिर उस के पुत्रों को समीप ले आकर उन को अंगरखे पहिनाना । और उन के अर्थात् हारून और उस के पुत्रों के फेंटे बांधना और उन के सिर पर टोपियां रखना, जिस से

(३) यहाँ और जहाँ कहीं याजकों के संस्कार वा याजकों के से संस्कार की चर्चा होतहाँ जानो कि मूल का शब्दांश हाथ भर देना वा भर लेना है ।

१० व जक के पद का उन के पास होना सदा की विधि  
 ठहरे इसी प्रकार हारून और उस के पुत्रों का संस्कार  
 करना । और बछड़े को मिलापवाले तंबू के साम्हने समीप  
 ले आना और हारून और उस के पुत्र बछड़े के सिर पर  
 ११ अपने अपने हाथ टेकें । तब उस बछड़े का यहोवा के  
 १२ आगे मिलापवाले तंबू के द्वार पर बलि करना । और  
 बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी  
 के सींगों पर लगाना और और सब लोहू को वेदी  
 १३ के पाये पर उंबेल देना । और जिस चरबी से अन्तरियां  
 ढपी रहती हैं, और जो भिस्की कलेजे के ऊपर होती है उन  
 दोनों को गुदों और उन पर की चरबी समेत लेकर सब  
 १४ को वेदी पर जलाना । और बछड़े का मांस और खाल  
 और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना क्योंकि  
 १५ यह पापबलिपशु होगा । फिर एक मेढ़ा लेना और हारून  
 और उस के पुत्र उस के सिर पर अपने अपने हाथ टेकें ।  
 १६ तब उस मेढ़े को बलि करना और उस का लोहू लेकर  
 १७ वेदी पर चारों ओर छिड़कना । और उस मेढ़े को टुकड़े  
 टुकड़े काटना और उस की अन्तरियों और पैरों को धोकर  
 १८ उस के टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना । तब उस सारे  
 मेढ़े को वेदी पर जलाना वह तो यहोवा के लिये होमबलि  
 होगा वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिये हव्य<sup>१</sup>  
 १९ होगा । फिर दूसरे मेढ़े का लेना और हारून और उस के  
 २० पुत्र उस के सिर पर अपने अपने हाथ टेकें । तब उस  
 मेढ़े को बलि करना और उस के लोहू में से कुछ लेकर  
 हारून और उस के पुत्रों के दहिने कान के सिरे पर और  
 उन के दहिने हाथ और दहिने पांव के अगूठों पर लगाना  
 २१ और लोहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना । फिर वेदी  
 पर के लोहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ  
 कुछ लेकर हारून और उस के बख्शों पर और उस के पुत्रों  
 और उन के बख्शों पर भी छिड़क देना, तब वह अपने  
 बख्शों समेत और उस के पुत्र भी अपने अपने बख्शों समेत  
 २२ पवित्र हो जाएंगे । तब मेढ़े का संस्कारवाला जानकर उस  
 में से चरबी और मोटी पूंछ को और जिस चरबी से  
 अन्तरियां ढपी रहती हैं उस को और कलेजे पर की भिस्की  
 को और चरबी समेत दोनों गुदों को और दहिने पुट्टों को  
 २३ लेना । और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे  
 धरी होगी उस में से भी एक रोटी और तेल से सने हुए  
 २४ मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर इन सभी को  
 हारून और उस के पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाये जाने  
 २५ का भेंट करके यहोवा के आगे हिलाना । तब उन वस्तुओं  
 को उन के हाथों से लेकर होमबलि के ऊपर वेदी पर जला

(१) अर्थात् जो वस्तु अग्नि में जलाने के लिये जाय ।

देना जिस से वे यहोवा के साम्हने चढ़कर सुखदायक  
 सुगंध ठहरे, वह तो यहोवा के लिये हव्य होगी । फिर २६  
 हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उस की छाती को  
 लेकर हिलाये जाने की भेंट करके यहोवा के आगे हिलाना  
 और वह तेरा भाग ठहरेगा । और हारून और उस के पुत्रों २७  
 के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसमें से हिलाये जाने की  
 भेंटवाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाये जाने की  
 भेंटवाला पुट्टा जो उठाया जाएगा इन दोनों का पवित्र २८  
 ठहराना कि ये सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की  
 ओर से उस का और उस के पुत्रों का भाग ठहरें क्योंकि  
 ये उठाये जाने की भेंट ठहरी है, सो यह इस्राएलियों की  
 ओर से उन के मेलबलियों में से यहोवा के लिये उठाये  
 जाने की भेंट होगी । और हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे २९  
 सो उस के पीछे उस के बेटे पोते आदि को मिलते रहें कि  
 उन्हीं को पहिने हुए उन का अभिषेक और संस्कार किया  
 जाए । उस के पुत्रों में से जो उस के स्थान पर याजक ३०  
 होगा सो जब पवित्रस्थान में सेवा टहल करने को मिलाप-  
 वाले तंबू में पहिले आए तब उन बख्शों को सात दिन लों  
 पहिने रहे । फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा ३१  
 उसे लेकर उस का मांस किसी पवित्र स्थान में सिभाना ।  
 तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढ़े का मांस और ३२  
 टोकरी की रोटी दोनों को मिलापवाले तंबू के द्वार पर  
 खायें । और जिन पदार्थों से उन का संस्कार और उन्हें ३३  
 पवित्र करने के लिये प्रायश्चित्त किया जाएगा उन को वे  
 तो खायें परन्तु पराये कुल का कोई उन्हें न खाने पाए  
 क्योंकि वे पवित्र होंगे । और यदि संस्कारवाले मांस वा ३४  
 रोटी में से कुछ बिहान लों बचा रहे तो उस बचे हुए को  
 आग में जलाना वह खायी न जाए क्योंकि पवित्र होगा ।  
 और मैं ने तुम्हें जो जो आज्ञा दी है उन सभी के अनुसार ३५  
 तू हारून और उस के पुत्रों से करना और सात दिन लों  
 उन का संस्कार करते रहना, अर्थात् पापबलि का एक ३६  
 बछड़ा प्रायश्चित्त के लिये दिन दिन चढ़ाना और वेदी के  
 लिये भी प्रायश्चित्त करके उस को पाप छुड़ाकर पावन  
 करना और उसे पवित्र करने के लिये उस का अभिषेक  
 करना । सात दिन लों वेदी के लिये प्रायश्चित्त करके उसे ३७  
 पवित्र करना और वेदी परमपवित्र ठहरेगी और जो कुछ  
 उस से छू जाएगा वह पवित्र ठहरेगा ॥

जो तुम्हें वेदी पर नित्य चढ़वाना होगा वह यह है ३८  
 अर्थात् दिन दिन एक एक बरस के दो भेड़ी के बच्चे ।  
 एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ ३९  
 के बच्चे को गोधूल के समय चढ़ाना । और एक भेड़ के ४०  
 बच्चे के संग हीन की चौथाई कूटके निकाले हुए तेल से



- ४१ धना हुआ एपा का दसवां भाग मैदा और अष के लिये  
 ४२ हीन की चौथाई दाखमधु देना । और दूसरे मेड़ के बच्चे  
 को गोधूलि के समय चढ़ाना और उस के साथ मोर के  
 से अन्नबलि और अष दोनों करना जिस से वह सुख-  
 ४३ दायक सुगंध और यहोवा के लिये हृद्य ठहरे । तुम्हारी  
 पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलापवाले तंबू के द्वार  
 पर नित्य ऐसा ही होमबलि हुआ करे यह वह स्थान है  
 जिस में मैं तुम लोगों से इस लिये मिला करूंगा कि तुम  
 ४४ से बातें करूँ । और मैं इस्राएलियों से वहीं मिला करूंगा  
 और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा । और मैं  
 मिलापवाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून  
 और उस के पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिये  
 ४५ याजक का काम करें । और मैं इस्राएलियों के बीच  
 ४६ निवास करूंगा और उन का परमेश्वर ठहरूंगा । तब वे  
 जान लेंगे कि मैं यहोवा उन का वह परमेश्वर हूँ जो उन  
 को मिस्र देश से हम लिये निकाल लाया है कि उन के  
 बीच निवास करे मैं तो उन का परमेश्वर यहोवा हूँ ॥  
 (मांति मांति की पवित्र वस्तुएँ बनाने और मांति मांति की  
 गति चलाने की आशाएँ)

३०. फिर पूर जलाने के लिये बबूल की लकड़ी की  
 एक वेदी बनवाना । उस की लम्बाई एक  
 हाथ और चौड़ाई एक हाथ की हो सो वह चौकोर हो  
 और उस की ऊंचाई दो हाथ की हो और वह और उस  
 ३ के सींग एक ही टुकड़ा हो । और इस वेदी के ऊपरवाले  
 पल्ले और चारों ओर की अलंगों और सींगों को चोखे  
 सेने से मढ़वाना और इस की चारों ओर सेने की एक  
 ४ बाड़ बनवाना । और इस की बाड़ के नीचे इस के दोनों  
 पल्लों पर सेने के दो दो कड़े बनवाकर इस के दोनों ओर  
 लगवाना वे इस के उठाने के डण्डों के खानों का काम  
 ५ दें । और डण्डों को बबूल का लकड़ी के बनवाकर सेने  
 ६ से मढ़वाना । और इस को उस पदों के आगे रखना जो  
 साक्षीपत्र के संदूक के साम्हने होगा अर्थात् प्रायश्चित्तवाले  
 दकने के आगे रखना जो साक्षीपत्र के ऊपर होगा उसी  
 ७ स्थान में मैं तुम से मिला करूंगा । और इस वेदी पर  
 हारून सुगन्धित धूप जलाया करे दिन दिन मोर को जब  
 ८ वह दीपकों को ठीक करेगा तब वह धूप को जलाए । फिर  
 गोधूलि के समय जब वह दीपकों को बारेगा तब भी  
 उसे तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के साम्हने नित्य धूप जान  
 ९ के जलाए । इस वेदी पर तुम न तो और प्रकार का धूप  
 और न होमबलि न अन्नबलि चढ़ाना और न इस पर अघ  
 १० देना । और हारून बरस दिन में एक बार इस के सींगों

(१) मूल में चढ़ाएगा ।

पर प्रायश्चित्त करे तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में बरस दिन म एक  
 बार प्रायश्चित्त के पापबलि के लोहू से इस पर प्रायश्चित्त  
 किया जाए यह यहोवा के लिये परमपवित्र ठहरे ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्रा-११, १२  
 एलियों की गिनती लेने लगे तब वे गिनने के समय अपने  
 अपने प्राण के लिये यहांवा को प्रायश्चित्त दें, न हो कि उस  
 समय उन पर कोई बिपात्त पड़े । जितने लोग गिने जाएँ १३  
 वे पवित्रस्थान के शेकेल के लेखे से आधा शेकेल दें यह  
 शेकेल तो बीस गेरा का हांता है सो यहोवा की भेंट  
 आधा शेकेल हो । बीस बरस के वा उस से अधिक १४  
 अवस्था के जो गिने जाएँ उन में से एक एक जन  
 यहोवा की भेंट दे । जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित्त के १५  
 निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए तब न तो भनी लोग  
 आधे शेकेल से अधिक दें और न कंगाल लोग उस से  
 कम दें । सो इस्राएलियों से प्रायश्चित्त का रुपए लेकर १६  
 मिलापवाले तंबू के काम के लिये देना जिस से वह  
 यहोवा के साम्हने इस्राएलियों का स्मरणचिन्ह ठहरे और  
 उन के प्राणों का भी प्रायश्चित्त हो ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, घेने के लिये पीतल १७, १८  
 की एक हौदी और उस का पाया पीतल का बनवाना  
 और उसे मिलापवाले तंबू और वेदी के बीच में रखवाकर  
 उस में जल भराना । और उस में हारून और उस के १९  
 पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें । जब जब वे २०  
 मिलापवाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ पांव जल  
 से धोएँ, नहीं तो मर जाएंगे और जब जब वे वेदी के  
 पास सेवा टहल करने अर्थात् यहोवा के लिये हृद्य जलाने  
 को आएँ तब तब भी वे हाथ पांव धोएँ, न हो कि मर  
 जाए । यह हारून और उस के पीढ़ी पीढ़ी के वंश के २१  
 लिये सदा की विधि ठहरे ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुख्य मुख्य २२, २३  
 सुगन्ध द्रव्य अर्थात् पवित्रस्थान के शेकेल के लेखे से पांच  
 सौ शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उस की  
 आधी अर्थात् अढ़ाई सौ शेकेल सुगन्धित दारचीनी और  
 अढ़ाई सौ शेकेल सुगन्धित बच और पांच सौ शेकेल २४  
 तज और एक हीन जलपाई का तेल लेकर उन से २५  
 अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात् गंधी की रीति से बासा  
 हुआ सुगन्धित तेल बनवाना यह अभिषेक का पवित्र तेल  
 ठहरे । और उस से मिलापवाले तंबू का और साक्षीपत्र २६  
 के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और २७  
 सामान समेत दीवट का और धूपवेदी का और सारे २८  
 सामान समेत होमवेदी का और पाये समेत हौदी का

(१) मूल में गिने हुआ के पास पार जाएँ ।

- २९ अभिवेक करना । और उन को पवित्र करना कि वे परम-  
पवित्र ठहरे जो कुछ उन से झू जाएगा वह पवित्र ठहरे ।  
३० फिर पुत्रों सहित हारून का भी अभिवेक करना और यों  
उन्हें मेरे लिये याजक का काम करने को पवित्र करना ।  
३१ और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना कि वह तेल  
तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिये पवित्र अभिवेक का तेल  
३२ हो । वह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और  
मिलावट में उस के सरीखा और कुछ न बनाना वह तो  
३३ पवित्र होगा वह तुम्हारे लेखे पवित्र ठहरे । जो कोई उस  
के सरीखा कुछ बगुन वा जां कोई उस में से कुछ पराये  
कुलवाले पर लगाए वह अपने लोगों में से नाश  
किया जाए ॥
- ३४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा बाल नखी और कुन्दरूये  
सुगन्ध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले लेना तेल में ये सब  
३५ एक समान हों । और इन का धूप अर्थात् लौन मिला  
कर गन्धी की रीति से बासा हुआ चोखा और पवित्र सुगन्ध  
३६ द्रव्य बनवाना । फिर उस में से कुछ पीस कर बुकनी कर  
डालना तब उस में से कुछ मिलापवाले तंबू में साक्षीपत्र  
के आगे जहां पर मैं तुम्हें से मिला करूंगा वहां रखना  
३७ वह तुम्हारे लेखे परमपवित्र ठहरे । और जो धूप तू बनवाएगा  
मिलावट में उस के सरीखा तुम लोग अपने लिये और  
३८ कुछ न बनवाना वह तुम्हारे लेखे यहोवा के लिये पवित्र  
ठहरे । जो कोई सुघने के लिये उस के सरीखा कुछ  
बनाए सो अपने लोगों में वह नाश किया जाए ॥

### ३१. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं

- ऊरो के पुत्र बसलेल को जो हूर  
का पाता और यहूदा के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता  
३ हूँ । और मैं उस को परमेश्वर के आत्मा से जो बुद्धि,  
प्रवीणता, शान और सब प्रकार के कार्यों की समझ  
४ देनेद्वारा आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ जिस से वह हथौड़ी  
के कार्य बुद्धि से निकाल निकालकर सब भान्ति का  
५ बनावट में अर्थात् सोने चाँदी और पीतल में और जड़ने  
के लिये मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम  
६ करे । और सुन मैं दान के गोत्रवाले अहीसामाक के पुत्र  
ओहोलीआब को उस के संग कर देता हूँ बरन जितने  
बुद्धिमान हैं उन सभी के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ कि  
जितनी वस्तुओं का आज्ञा मैं ने तुम्हें दी है उन सभी  
७ को वे बनाएं अर्थात् मिलापवाला तंबू और साक्षीपत्र  
का सन्दूक और उस पर का प्रार्थितवाला ढकना और  
८ तंबू का सारा सामान और सामान रहित मेज और सारे  
९ सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूपबेदी और  
१० सारे सामान सहित धाम-दी और पाये समेत हौदी और

काढ़े हुए बख और हारून याजक के याजकवाले काम  
के पवित्र बख और उस के पुत्रों के बख और अभिवेक ११  
का तेल और पवित्रस्थान के लिये सुगन्धित धूप इन  
समों के वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाएं जो मैं  
ने तुम्हें दी हैं ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों १२, १३  
से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्रामदिनों को  
मानना क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों  
के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है जिस से तुम यह बात  
जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेद्वारा है । इस १४  
कारण तुम विश्रामदिन को मानना क्योंकि वह तुम्हारे  
लिये पवित्र ठहरा है जो उस को अपवित्र करे सो निश्चय  
मार डाला जाए, जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज  
करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए ।  
छः दिन तो काम काज किया जाए पर सातवां दिन १५  
परमविश्राम का दिन और यहोवा के लिये पवित्र है सो  
जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह  
निश्चय मार डाला जाए । सो इस्राएली विश्रामदिन को १६  
माना करे बरन पीढ़ी पीढ़ी में उस को सदा की वाचा का  
विषय जानकर माना करे । वह मेरे और इस्राएलियों के १७  
बीच सदा एक चिन्ह रहेगा क्योंकि छः दिन में यहोवा  
ने आकाश और पृथिवी को बनाया और सातवें दिन  
विश्राम करके अपना जी ठण्डा किया ॥

जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर १८  
चुका तब उस ने उस को अपनी उंगली से लिखी हुई  
सान्दी देनेवाली पत्थर की टांगों पटियाएं दीं ॥

(इस्राएलियों के मूर्तिपूजा में फंसने का वर्णन)

### ३२. जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से

उतरने में विलम्ब हुआ तब वे हारून  
के पास इकट्ठे होकर कहने लगे अब हमारे लिये देवता  
बना जो हमारे आगे आगे चले क्योंकि उस पुरुष मूसा  
को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है न जानिये  
क्या हुआ । हारून ने उन से कहा तुम्हारी स्त्रियों और २  
बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें  
तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ । तब सब लोगों ३  
ने उन के कानों में की सोनेवाली बालियों को तोड़कर  
उतारा और हारून के पास ले आये । और हारून ने ४  
उन्हें उन के हाथ से लिया और टांकी से गढ़ के एक  
बड़ड़ा ढालकर बनाया तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल  
तेरा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह  
यही है । यह देखके हारून ने उस के आगे एक वेदी ५  
बनवाई और यह प्रचार कि कल यहोवा के लिये पर्व

- ६ होगा। सो दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर हीमबलि चढ़ाये और मेलबलि ले आये फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे ॥
- ७ तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गये हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैं ने उन को दी थी उस को भटपट छोड़ कर उन्होंने ने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उस को दंडबत् किया और उस के लिये बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इस्राएलियों तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है सो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा मैं ने इन लोगों को देखा और सुना वे १० हठीले हैं। सो अब मुझे मत रोक मैं उन्हें मड़के कोप से भस्म कर दूँ और तुझ से एक बड़ी जाति उपजाऊँ।
- ११ तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहके मनाने लगा कि हे यहोवा तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों मड़का है जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवन्त हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाएँ कि वह उन को बुरे अभिप्राय से अर्थात् पहाड़ों में धात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने मड़के हुए कोप से फिर अपनी प्रजा की ऐसी हानि से पछुता। अपने दास इब्राहीम इसहाक और याकूब का स्मरण कर जिन से तू ने अपनी ही किरिया खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा और यह सारा देश जिस की मैं ने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूँगा १४ कि वह उस का अधिकारी सदा लों रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की वह हानि करने से पछुताया जो उस ने करने को कही थी ॥
- १५ तब मूसा फिरकर साक्षी की दोनों पाँटियाएँ हाथ में लिये हुए पहाड़ से उतर चला उन पाँटियाओं के तो इधर और उधर दोनों अलगों पर कुछ लिखा हुआ था। १६ और वे पाँटियाएँ परमेश्वर की बनाई हुई थीं और उन पर जो लिखा था वह परमेश्वर का खोदकर लिखा हुआ था ॥
- १७ जब यहोवा के लोगों के कोलाहल का शब्द सुन पड़ा तब उस ने मूसा से कहा छावनी से लड़ाई का सा १८ शब्द सुनाई देता है। उस ने कहा वह जो शब्द है सो न तो जीतनेहारों का है और न हारनेहारों का मुझे तो १९ गाने का शब्द सुन पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा तब मूसा का कोप मड़क उठा और उस ने पाँटियाओं को अपने हाथों

(१) मूल में कहीं गहनकाले ।

- से पर्वत के तले पटककर तोड़ डाला। तब उस ने उन २० के बनाये हुए बछड़े को ले आग में डालके फूंक दिया और पीसकर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फूंक दिया और इस्राएलियों को उसे पिलवा दिया। तब मूसा २१ हारून से कहने लगा। उन लोगों ने तुझ से क्या किया कि तू ने उन को इतने बड़े पाप में फसाया। हारून ने उत्तर २२ दिया मेरे प्रभु का कोप न मड़के तू तो उन लोगों को जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाये रहते हैं। सो २३ उन्होंने ने मुझ से कहा था कि हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है न जानिये क्या हुआ। तब मैं ने उन से कहा जिस जिस के पास सोने के गहने हों २४ वे उन को तोड़के उतारें सो जब उन्हें ने उन्हें मुझ को दिया और मैं ने उन्हें आग में डाल दिया तब यह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर २५ दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हुए। सो उन को निरंकुश देखकर, मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा जो कोई यहोवा की आंर का हाँ वह मेरे पास आए तब सारे लेवीय उस के पास इकट्ठे हुए। उस ने उन से कहा इस्राएल का परमेश्वर २६ यहोवा यों कहता है कि अपनी अपनी जाँघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से ले दूमेरे निकास लों घूम घूमकर अपने अपने भाइयों साँगियों और पड़सियों को धात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवीयों ने २७ किया और उस दिन तीन हजार के अटकल लोग मारे गये। फिर मूसा ने कहा आज के दिन यहोवा के लिये २८ अपना याजकपद का संस्कार करो<sup>२</sup> बरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिस से वह आज तुम को आशिष दे। दूसरे दिन मूसा ने लोगों ३० से कहा तुम ने बड़ा ही पाप किया है अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊँगा क्या जानिये मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित्त कर सकूँ। सो मूसा यहोवा के पास फिर जाकर ३१ कहने लगा कि हाय हाय उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उन का ३२ पाप क्षमा करे—नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे<sup>४</sup>। यहोवा ने मूसा से कहा जिस ने ३३ मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूँगा। अब तो तू जाकर उन लोगों को उस ३४ स्थान में ले चल जिस की चर्चा मैं ने तुझ से की थी देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा पर जिस दिन मैं

(२) मूल में कुसफुसाहट । (३) मूल में अपना हाथ भरो । (४) मूल में सुभी को मिटा ।

दरब देने लगूँ उस दिन उन को इस पाप का दरब  
२५ दूंगा। और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि  
हारून के बनाये हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था ॥

**३३. फिर** यहोवा ने मूसा से कहा तू उन लोगों

को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है

संग लेकर उस देश को जा जिस के विषय मैं ने इब्राहीम

इसहाक और याकूब से किरिया खाकर कहा था कि मैं

२ इसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक

दूत को भेजूंगा और कनानी एमोरी हित्ती परिञ्जी हिब्वी

३ और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। सो तुम लोग

उस देश को जाओ जिस में दूध और मधु की धारा बहती

है पर तुम जो हठीले हो इस कारण मैं तुम्हारे बीच में

होके न चलूंगा ऐसा न हो कि मार्ग में तुम्हारा अन्त कर

४ डालूँ। यह बुरा समाचार सुनकर वे लांग थिलाप करने

५ लगे और कोई अपने गहने पहिने हुए न रहा। क्योंकि

यहांवा ने मूसा से कह दिया था कि इस्राएलियों को मेरा

यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो जो मैं पल

भर के लिये तुम्हारे बीच होकर चलूँ तो तुम्हारा अन्त कर

६ डालूंगा सो अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार

दे कि मैं जानूँ कि तुम से क्या करना चाहिये। तब

इस्राएली हारेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने

उतारे रहे ॥

(मूसा के इस्राएलियों के लिये पापमोचन मांगने का प्रार्थन)

७ मूसा तो तंबू को लेकर छावनी से बाहर बरन दूर

खड़ा कराया करता था और उस को मिलापवाला तंबू

कहता था और जो कोई यहोवा को बूढ़ता से उस

मिलापवाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल

८ जाता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब

सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते

और जब लौ मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता तब लौ

९ उस की ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में

प्रवेश करता तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार

पर ठहर जाता और यहोवा मूसा से बातें करने लगता

१० था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार

पर ठहरा देखते तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर

११ से दरबवत् करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार

आम्हने साम्हने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने

भाई से बातें करे और मूसा तो छावनी में फिर आता

था पर यहोवा नाम एक जवान जो नून का पुत्र और

मूसा का टहलुआ था सो तंबू में से न निकलत था ॥

१२ और मूसा ने यहोवा से कहा सुन तू मुझ से कहता

है कि इन लोगों को ले चल पर यह नहीं बताया कि तू मेरे

संग किस को भेजेगा तौ भी तू ने कहा है कि तेरा नाम

मेरे चित्त में बसा है<sup>१</sup> और तुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि

है। सो अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तां

मुझे अपनी गति समझा दे जिस से जब मैं तेरा ज्ञान

पाऊं तब तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे फिर इस

की भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने

कहा मैं आप चलूंगा<sup>२</sup> और तुके विभाम दूंगा। उस ने

उस से कहा यदि तू आप<sup>३</sup> न चले तो हमें यहां से आगे

न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की

१३ दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है क्या इस से नहीं

कि तू हमारे संग संग चले जिस से मैं और तेरी प्रजा के

लोग पृथिवी भर के सब लोगों से अलग ठहरें ॥

यहोवा ने मूसा से कहा मैं यह काम भी जिस की

१७ चर्चा तू ने की है करूंगा क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि

तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है<sup>४</sup>। उस ने

कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उस ने कहा मैं तेरे

१९ सन्मुख होकर चलते हुए तुके अपनी सारी भलाई दिखा-

ऊंगा<sup>५</sup> और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और

जिस पर मैं अनुग्रह करने चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा

और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा।

फिर उस ने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता

२० क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीता नहीं रह

सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन मेरे पास एक स्थान

२१ है सो तू उस चटान पर खड़ा हो। और जब लौ मेरा

तेज तेरे साम्हने होके चलता रहे<sup>६</sup> तब लौ मैं तुके चटान

के दरार में रक्खूंगा और जब लौ मैं तेरे साम्हने होकर न

निकल जाऊं तब लौ अपने हाथ से तुके टापे रूँगा।

फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा तब तू मेरी पीठ का तां

२३ दर्शन पाएगा पर मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा ॥

**३४. फिर** यहांवा ने मूसा से कहा पहिली

पटियाओं के समान पत्थर की दो

और पटियाएं गढ़ ले तब जा वचन उन पहिली पटियाओं

पर लिखे थे जिन्हें तू ने तोड़ डाला वे ही वचन मैं उन

पटियाओं पर भी लिखूंगा। और बिहान को तैयार हो

२ रहना और भोर के सानै पर्वत पर चढ़कर उस की चोटी

पर मेरे साम्हने खड़ा होना। और तेरे संग कोई न चढ़

३ जाए बरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे

और न भेड़ बकरी गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने

(१) मूल में मैं तुके नाम से जानता हूँ। (२) मूल में मेरा मुख

चलेगा। (३) मूल में तेरा मुख। (४) मूल में मैं तुके नाम से जानता

हूँ। (५) मूल में अपनी सारी भलाई तेरे साम्हने से चलाऊंगा। (६) मूल

में मेरा तेज तेरे साम्हने होके चलता रहे।

४ पाएँ । तब मूसा ने पहिली पटियाओं के समान दो और पटियाएँ गहीं और बिहान को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दो पटियाएँ लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया । तब यहोवा ने बादल में उतरके उस के संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया । श्री यहोवा उस के साम्हने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहावा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी कोप करने में धीरजवन्त और अति करुणा-मय और सत्य, हजारों पीढ़ियों लो निरन्तर करुणा करने-हारा अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करनेहारा है पर दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा वह पतरो के अधर्म का दण्ड उन के बेटों बरन पोतां और परपोतो को भी देनेहारा है । तब मूसा ने फुर्ती कर पृथिवी की ओर झुककर दण्डवत् की । और उस ने कहा है प्रभु याद तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले ये लोग हठीले तो हैं तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मानके ग्रहण कर । उस ने कहा सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ तेरे सब लोगों के साम्हने मैं ऐसे आश्चर्य्य कर्म करूंगा जैसे पृथिवी भर पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए और वे सारे लोग जिन के बीच तू रहता है यहोवा के कार्य्य को देखेंगे क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वह भययोग्य काम है । जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना देखा मैं तुम्हारे आगे से एमोरी कनानी हित्ती पारसी हिव्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ । सो सावधान रहना कि जिस देश में तू जानेवाला है उस के निवासियों से वाचा न बांधना न हो कि वह तेरे लिये फन्दा ठहरें । बरन उन की वेदियों को गिरा देना उन की लाठों को तोड़ डालना और उन की अशोरा नाम मूर्तियों को काट डालना । क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दण्डवत् करने की आज्ञा नहीं है क्योंकि यहोवा जिस का नाम जलनशील है वह जल उठनेहारा ईश्वर है ही । ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और अपने देवताओं के पीछे होने का व्याभिचार करे और उन के लिये बलिदान भी करे और कोई तुम्हें नेवता दे और तू भी उस के बलिपशु का प्रसाद खाए और तू उन की बेटियों को अपने बेटों के लिये बरे और उन की बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्याभिचार करती हैं तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्याभिचार कराएँ । तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर न बना लेना । अखमीरी रोटी का

पर्व मानना उस में मेरी आज्ञा के अनुसार आबीब महीने के नियत समय पर सात दिन लो अखमीरी रोटी खाया करना क्योंकि तू मिस्र से आबीब महीने में निकल आया । हर एक पहिलौठा मेरा है और क्या बड़ड़ा क्या मेझा तेरे पशुओं में से जो नर पहिलौठे हैं वे सब मेरे ही हैं । और गदही के पहिलौठे की सन्ती मेझा देकर उस को छुड़ाना याद तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उस की गर्दन तोड़ देना पर अपने सब पहिलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना । मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए । छः दिन तो परिभ्रम करना पर सातवें दिन विश्राम करना बरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना । और तू अठवारों का पर्व मानना जो पहिले लवे हुए गोहूँ का पर्व कहावता है और बरस के अन्त में बटोरन का भी पर्व मानना । बरस दिन में तीन बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपने मुंह दिखाएँ । मैं तो अन्यजातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरे सिवानों को बड़ाऊंगा और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने मुंह दिखाने के लिये बरस दिन में तीन बार आया करे तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा । मेरे बलिदान के लोहा को खमीर साहित न चढ़ाना और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ बिहान लो रहने देना । अपनी भूमि की पहिली उपज का पहिला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना । चकरी के बच्चे को उस की मा के दूध में न सिभाना । और यहोवा ने मूसा से कहा वे वचन लिख ले क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधता हूँ । मूसा तो वहाँ यहोवा के संग चालीस दिन रात रहा और तब लो न तो उस ने रोटी खाई न पानी पिया । और उस ने उन पटियाओं पर वाचा के वचन अथात् दस आज्ञाएँ लिख दीं ॥

जब मूसा साक्षी की दोनो पटियाएँ हाथ में लिये हुए सीनै पर्वत से उतरा आता था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उस के चिहरे से किरणें निकल रही थीं पर वह न जानता था कि मेरे चिहरे से किरणें निकल रही हैं । जब हारून और और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उस के चिहरे से किरणें निकलती हैं तब वे उस के पास जाने से डर गये । तब मूसा ने उन को बुलाया और हारून मण्डली के सारे प्रधानों समेत उस के पास आया और मूसा उन से बातें करने लगा । इस के पीछे सब इस्राएली पास आये और जितनी आज्ञाएँ यहोवा ने सीनै पर्वत पर उस के साथ बात करने के

(१) मूल में वचन । (२) मूल में सींग ।

समय ही थीं वे सब उस ने उन्हें बताईं । जब मूसा उन से बात कर चुका तब अपने मुँह पर ओढ़मा डाल लिया । और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उस के साम्हने जाता तब वह उस ओढ़ने को निकलते समय लों उतारे हुए रहता था फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था । सो इस्राएली मूसा का चिह्न देखते थे कि उस से किरणें निकलती हैं और जब लों वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता तब लों वह उस ओढ़ने को डाले रहता था ।

(सारे सामान समेत पवित्रस्थान और याजकों के बस्त्र बनाये जाने का वर्णन)

### ३५. मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठी करके उन से कहा जिन

- २ कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं । छः दिन तो काम काज किया जाए पर सातवां दिन तुम्हारे लेखे पवित्र और यहोवा के लिये परमविश्राम का दिन ठहरे उस में जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए । वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न बारना ।
- ६ फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मण्डलों से कहा जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है । तुम्हारे पास से यहोवा के लिये भेंट ली जाए अर्थात् जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले
- ८ जाएं अर्थात् सोना रूपा पीतल नीले बैजनों और लाही रंग का कपड़ा सूक्ष्म सनी क कपड़ा बकरी का बाल,
- ७ लाल रंग से रंगी हुई मेढों की खालें सूइसों की खालें
- ८ अबूल की लकड़ी उजियाला देने के लिये तेल अभिषेक
- ९ का तेल और धूप के लिये सुगंधद्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिये सुलैमानी मण्य और जड़ने के लिये
- १० मण्य । और तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने
- ११ दी है वे सब बनाएं । अर्थात् तंबू और ओहाव समेत निवास और उस के अंकड़े तखते बेंडे खंभे और कुंसियां,
- १२ फिर डरड समेत सन्दूक और प्रायश्चित्त का ढकना
- १३ और बीचवाला पर्दा, डरडों और सब सामान समेत मेज
- १४ और भेंट की रोटियां सामान और दीपकों समेत उजियाला
- १५ देनेहारा दीबट और उजियाला देने के लिये तेल, डरडों समेत धूपवेदी, अभिषेक का तेल सुगंधित धूप और
- १६ निवास के द्वार क पर्दा, पीतल की भंभरीं डरडों आदि
- १७ सारे सामान समेत होमवेदी पाये समेत हैदी, खंभों और

(१) मूल में मींग ।

उन की कुंसियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूटे और डोरियां, पवित्रस्थान में सेवा टहल करने के लिये काड़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिये हाकन याजक के पवित्र वस्त्र और उस के पुत्रों के वस्त्र भी ॥

तब इस्राएलियों की सारी मण्डली मूसा के साम्हने से लौट गई । और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलापवाले तंबू के काम करने और उस की सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिये यहोवा की भेंट ले आने लगे कया स्त्री कया पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू नथुनी मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे इस भान्ति जितने मनुष्य यहोवा के लिये सोने की भेंट के देनेहारे थे वे सब उन को ले आये । और जिस जिस पुरुष के पास नीले बैजनी वा लाही रंग का कपड़ा वा सूक्ष्म सनी का कपड़ा वा बकरी का बाल वा लाल रंग से रंगी हुई मेढों की खालें वा सूइसों की खालें थीं वे उन्हें ले आये । फिर जितने चांदी वा पीतल की भेंट के देनेहारे थे वे यहोवा के लिये वैसी भेंट ले आये और जिस जिस के पास सेवकाई के किसी काम के लिये अबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आये । और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत कात कातकर नीले बैजनी और लाही रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आईं । और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने ने बकरी के बाल भी काते । और प्रधान लोम एपोद और चपरास के लिये सुलैमानी मण्य और जड़ने के लिये मण्य और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के लिये सुगंधद्रव्य और तेल ले आये । जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उस उस के लिये जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आईं जिन के हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी । सो इस्राएली यहोवा के लिये अपनी ही इच्छा से भेंट ले आये ॥

तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा सुनो यहोवा ने यहूदा के गोत्रवाले बसलेल को जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है नाम लेकर बुलाया है । और उस ने उस को परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिये उस को ऐसी बुद्धि सम्भू और ज्ञान मिला है कि वह हथौटी की युक्तियां निकालकर सोने चांदी और पीतल में और जड़ने के

(२) मूल में जितनों को उन के मन ने उठाया । (३) मूल में आत्मा ।

- लिये मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में बरन बुद्धि से सब भाँति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके ।
- ३५ फिर यहोवा ने उस के मन में और दान के गोत्रवाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है । इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और नीले बैजनी और लाही रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काढ़ने और बुनने बरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भाँति के काम करें । सो बसलेल और ओहोलीआब
३६. और सब बुद्धिमान् जिन को यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हों कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्रस्थान की सेवकाई के लिये सब प्रकार का काम करना जानें वे सब यह काम करें ॥
- २ तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और और सब बुद्धिमानों को जिन के हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था अर्थात् जिस जिस को पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था उन सभों को बुलवाया ।
- ३ और इस्राएली जो जो भेंटें पवित्रस्थान की सेवकाई के काम और उस के बनाने के लिये ले आये थे उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया । तब भी लोग भोर भोर को उस के पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे । सो जितने बुद्धिमान पवित्रस्थान का काम करते थे वे सब अपना
- ५ अपना काम छोड़ मूसा के पास आये और कहने लगे जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उस के लिये
- ६ जितना चाहिये उस से अधिक वे ले आये हैं । तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार कराया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्रस्थान के लिये और भेंट न बना
- ७ लाए सो लोग और लाने से रोके गये । क्योंकि सब काम बनाने के लिये जितना सामान आवश्यक था उतना बरन उस से अधिक बनानेहारों के पास आ चुका था ॥
- ८ सो काम करनेहारे जितने बुद्धिमान थे उन्होंने ने निवास के लिये बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले बैजनी और लाही रंग के कपड़े के दस पटों को काढ़े हुए करवों सहित बनाया । एक एक पट की लंबाई अट्ठाईस हाथ और चौड़ाई चार हाथ की हुई सब पट एक ही नाप के बने ।
- १० और उस ने पाँच पट एक दूसरे से जोड़ दिये और फिर
- ११ दूसरे पाँच पट भी एक दूसरे से जोड़ दिये । और जहाँ वे पट जोड़े गये वहाँ की दोनों छोरों पर उस ने नीली
- १२ नीली फालियाँ लगाईं उस ने दोनों छोरों में पचास
- (१) मूल में जिस को काम करने के लिये पास आने को उस के मन ने उठवाया है ।

पचास फालियाँ ऐसे लगाईं कि वे आम्हने साम्हने हुईं । और उस ने सोने के पचास अंकड़े बनाये और उन के द्वारा पटों को एक दूसरे से ऐसा छोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया । फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिये उस ने बकरी के बाल के ग्यारह पट बनाये । एक एक पट की लंबाई तीस हाथ और चौड़ाई चार हाथ की हुई और ग्यारहों पट एक ही नाप के बने । इन में से उस ने पाँच पट अलग और छः पट अलग जोड़ दिये । और जहाँ दोनो जोड़े गये वहाँ की छोरों में उस ने पचास पचास फालियाँ लगाईं । और उस ने तंबू के जोड़ने के लिये पीतल के पचास अंकड़े बनाये जिन से वह एक हो जाए । और उस ने तंबू के लिये लाल रंग से रंगी हुई मेढों की खालों का एक आहार और उस के ऊपर के लिये सूइसों की खालों का भी एक आहार बनाया ॥

फिर उस ने निवास के लिये बबूल की लकड़ी के तखतों को खड़े रहने के लिये बनाया । एक एक तखत की लंबाई दस हाथ और चौड़ाई डेढ़ हाथ की हुई । एक एक तखत में एक दूसरी से जोड़ी हुई दो दो चूलों बनीं निवास के सब तखतों के लिये उस ने इसी भाँति बनाईं । और उस ने निवास के लिये तखतों का इस रीति से बनाया कि दक्खिन ओर बीस तखतें लगें । और इन बीसों तखतों के नीचे चाँदी की चालीस कुसियाँ अर्थात् एक एक तखत के नीचे उस की दो चूलों के लिये उस ने दो कुसियाँ बनाईं । और निवास की दूसरी अलंग अर्थात् उत्तर ओर के लिये भी उस ने बीस तखतें बनाये । और इन के लिये भी उस ने चाँदी की चालीस कुसियाँ अर्थात् एक एक तखत के नीचे दो दो कुसियाँ बनाईं । और निवास की पिछली अलंग अर्थात् पच्छिम ओर के लिये उस ने छः तखतें बनाये । और पिछली अलंग में निवास के कोनों के लिये उस ने दो तखतें बनाये । और वे नीचे से दो दो भाग के बने और दांता भाग ऊपर के सिरे लों एक एक कड़े में मिलाये गये उस ने दोनों कोनों के लिये उन दोनों तखतों का ढब ऐसा ही बनाया । सो आठ तखतें हुए और उन की चाँदी की सोलह कुसियाँ हुईं अर्थात् एक एक तखत के नीचे दो दो कुसियाँ हुईं । फिर उस ने बबूल का लकड़ी के बेंड़े बनाये अर्थात् निवास की एक अलंग के तखतों के लिये पाँच बेंड़े और निवास की दूसरी अलंग के तखतों के लिये पाँच बेंड़े और निवास की जो अलंग पच्छिम ओर पिछले भाग में थी उस के लिये भी पाँच बनाये । और उस ने बीचवाले बेंड़े के तखतों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे लों पहुँचने के लिये बनाया । और तखतों को उस ने सोने

से मढ़ा और बड़ों के घर का काम देनेहारे कड़ा का सोने के बनाया और बेंड़े को भी सोने से मढ़ा ॥

- २५ फिर उस ने नीले बैजनी और लाही रंग के कपड़े का आर पटी हुई सूक्ष्म सनीवाले कपड़े का बीचवाला पदा बनाया वह कढ़ाई के काम किये हुए करुबा के साथ  
२६ बना । और उस ने उस के लिये बबूल के चार खंभे बनाये और उन को सोने से मढ़ा उन की अंकाइया सोने की बनीं और उस ने उन के लिये चांदी की चार कुंसिया  
२७ ढालीं । और उस ने तंबू के द्वार के लिये नीले बैजनी और लाही रंग के कपड़े का और पटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया ।  
२८ और उस ने अंकाइयां समेत उस के पांच खंभे भी बनाये और उन के सरां और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा और उन की पांच कुंसियां पीतल की बनीं ॥

### ३७. फिर असलेल ने बबूल की लकड़ी के

- सन्दूक को बनाया उस की लंबाई अड़ाई हाथ चौड़ाई डेढ़ हाथ और ऊंचाई डेढ़ हाथ की हुई । और उस ने उस को भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उस के चारों ओर सोने की बाड़ बनाई । और उस के चारों पायों पर लगाने को उस ने सोने के चार कड़े ढाले दो कड़े एक अलंग और दो कड़े दूसरी अलंग पर लगे । फिर उस ने बबूल के डंडे बनाये और उन्हें सोने से मढ़ा और उन को सन्दूक की दोनों अलंगों के कड़ां में डाला कि उन के बल सन्दूक उठाया जाए । फिर उस ने चोखे सोने के प्रायश्चित्तवाले ढकने को बनाया उस की लंबाई अड़ाई हाथ और चौड़ाई डेढ़ हाथ की हुई । और उस ने मोना गढ़कर दो करुब प्रायश्चित्त के ढकने के दोनों सिरों पर बनाये । एक करुब तो एक सिर पर और दूसरा करुब दूसरे सिर पर बना, उस ने उन को प्रायश्चित्त के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के और उस के दोनों सिरों पर बनाया । और करुबों के पंख ऊपर से फैले रहने और उन पंखों से प्रायश्चित्त का ढकना ढपा हुआ बना और उन के मुख आम्हने साम्हने और प्रायश्चित्त के ढकने की और किये हुए बने ।  
१० फिर उस ने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया उस की लंबाई दो हाथ चौड़ाई एक हाथ और ऊंचाई डेढ़ हाथ की हुई । और उस ने उस को चोखे सोने से मढ़ा और उस में चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई ।  
११ और उस ने उस के लिए चार अंगुल चौड़ी एक पट्टी और इसपट्टी के लिये चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई ।  
१२ और उस ने मेज के लिये सोने के चार कड़े ढालकर उन चारों कोनों में लगाया जा उस के चारों पायों पर थे ।  
१३ वे कड़े पट्टी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का

काम देने को बने । और उस ने मेज उठाने के लिये डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा । और उस ने मेज पर का सामान अर्थात् परात धूपदान कटोरे और उंडेलने के बतन सब चोखे सोने के बनाये ॥

- फिर उस ने चोखा सोना गर के गये और डण्डी समेत दीवट को बनाया उस के पुष्पकोश गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने । और दीवट से निकली हुई छः डालियां बनीं तीन डालियां तो उस की एक अलंग से और तीन डालियां उस की दूसरी अलंग से निकली हुई बनीं । एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे तीन तीन पुष्पकोश एक एक गांठ और एक एक फूल बना दीवट से निकली हुई उन छहों डालियों का यही ढब हुआ । और दीवट की डण्डी में बादाम के फूल के सरीखे अपना अपना गांठ और फूल समेत चार पुष्पकोश बने और दीवट से निकली हुई छहों डालियों में से दो दो डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनीं । गांठें और डालियां सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनीं सारा दीवट गढ़े हुए चोखे सोने का और एक ही टुकड़े का बना । और उस ने दीवट के सातों दीपक और गुलतराश और गुलदान चोखे सोने के बनाये । उस ने पांच सामान समेत दीवट को किष्कार भर सोने का बनाया ॥

फिर उस ने धूपवेदी को बबूल की लकड़ी की बनाया उस को लम्बाई एक हाथ और चौड़ाई एक हाथ की हुई वह चौकोर बनी और उस की ऊंचाई दो हाथ की हुई और उस के सींग उस के साथ बना जोड़ के बने । और ऊपरवाले पल्लों और चारों ओर की अलंगों और सींगों समेत उस ने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा और उस की चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई । और उस की बाड़ के नीचे उस के दोनों पल्लों पर उस ने सोने के दो कड़े बनाये जो उस के उठाने के डण्डों के खानों का काम दें । और डण्डों को उस ने बबूल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा । और उस ने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंधद्रव्य का धूप गंधी की रीति से बासा हुआ बनाया ॥

३८. फिर उस ने होमवेदी को भी बबूल की लकड़ी की बनाया उस की लंबाई पांच हाथ और चौड़ाई पांच हाथ की हुई इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई तीन हाथ की हुई । और उस ने उस के चारों कोनों पर उस के चार सींग बनाये वे उस के साथ बिना जोड़के बने और उस ने उस को पीतल से मढ़ा । और उस ने वेदी का सारा सामान अर्थात् उस की हादियों फावाड़ियों कटोरों कांठों और करछों को बनाया



- ४ उस का सारा सामान उसने पीतल का बनाया । और वेदी के लिये उस के चारों ओर की कंगनी के तले उस ने पीतल की जाली की एक भंभरी बनाई वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य लों पहुँची । और उस ने पीतल की भंभरी के चारों कोनों के लिये चार कड़े ढाले जो डण्डों के खानों का काम दें । फिर उस ने डण्डों को बबूल की लकड़ी के बनाया और पीतल से मढ़ा । तब उस ने डण्डों को वेदी की अलंगों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिये ढाल दिया । वेदी को उस ने तखतों से खोखली बनाया ॥
- ८ और उसने हौदी और उस का पाया दोनों पीतल के बनाये वह उन सेवा करनेहारी स्त्रियों के दर्पणों के पीतल के बने जो मिलापवाले तंबू के द्वार पर सेवा करती थीं ॥
- ९ फिर उस ने आंगन को बनाया दक्खिन अलंग के लिये आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और सब मिलाकर सौ हाथ के बने । उन के बीस खंभे और इन की पीतल की बीस कुर्सियाँ बनीं और खंभों की अंकड़ियाँ और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनीं । और उत्तर अलंग के लिये भी सौ हाथ के पर्दे बने उन के बीस खंभे और इन की पीतल की बीस कुर्सियाँ बनीं और खंभों की अंकड़ियाँ और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनीं । और पच्छिम अलंग के लिये पचास हाथ के पर्दे बने उन के खंभे दस और कुर्सियाँ भी दस बनीं खंभों की अंकड़ियाँ और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनीं । और पूरब अलंग पचास हाथ की बनी । आंगन के द्वार के एक ओर के लिये पंद्रह हाथ के पर्दे बने और उन के खंभे तीन और कुर्सियाँ भी तीन बनीं । और आंगन के द्वार के दूसरे ओर भी वैसा ही बना इधर और उधर पंद्रह पंद्रह हाथ के पर्दे बने उन के खंभे तीन तीन और इन की कुर्सियाँ भी तीन तीन बनीं । चारों ओर आंगन के सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने । और खंभों की कुर्सियाँ पीतल की और अंकड़ियाँ और छड़ें चांदी की बनीं और उन के सिरे चांदी से मढ़े गये और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गये । आंगन के द्वार का पर्दा कड़ाई का काम किया हुआ नीले बैजनी और लाही रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना और उस की लंबाई बीस हाथ की हुई और उस की चौड़ाई जो द्वार की ऊंचाई थी आंगन की कनात के समान पाँच हाथ की बनी । और उन के खंभे चार और खंभों की पीतलवाली कुर्सियाँ चार बनीं उन की अंकड़ियाँ चांदी की बनीं और उन के सिरे चांदी से मढ़े गये और उन की छड़ें चांदी की बनीं । और निवास के और आंगन के चारों ओर के सब खड़े पीतल के बने ॥

साक्षीपत्र के निवास का सामान जो लेखीयों की सेवकाई के लिये बना और जिस की गिनती हारून याजक के पुत्र ईतामार के द्वारा मूसा के कहे से हुई उस का व्योरा यह है । जिस जिस वस्तु के बनाने की आशा यहोवा ने मूसा को दी थी उस को यहूबा के गोत्रवाले बसलेल ने जो हूर का पोता और जरी का पुत्र था बना दिया । और उस के संग दान के गोत्रवाले अहीसामाक का पुत्र ओहोलीआब था जो खोदने और काढ़नेहारा और नीले बैजनी और लाही रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कारचोब करनेहारा था ।

पवित्रस्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा वह उनतीस किकार और पवित्रस्थान के शेकेल के लेखे से सात सौ तीस शेकेल था । और मण्डली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी सौ किकार और पवित्रस्थान के शेकेल के लेखे से सत्तरह सौ पचहत्तर शेकेल थी । अर्थात् जितने बीस बरसवाले और उस से अधिक अवस्था वाले होके गिने गये थे उन छः लाख माढ़े तीन हजार पन्चास पुरुषों में के एक एक जन की ओर से पवित्रस्थान के शेकेल के लेखे से आधा शेकेल जो एक बेका ढाटा है मिला । और वह सौ किकार चांदी पवित्रस्थान और बीचवाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई सौ किकार से सौ कुर्सियाँ बनीं एक एक कुर्सी एक किकार की बनी । और सत्तरह सौ पचहत्तर शेकेल जो बच गये उन से खंभों की अंकड़ियाँ बनाई गईं और खंभों की चोटियाँ मढ़ी गईं और उन की छड़ें भी बनाई गईं । और भेंट का पीतल मत्तर किकार और दो हजार चार सौ शेकेल था । उस से मिलापवाले तंबू के द्वार की कुर्सियाँ और पीतल की वेदी पीतल की भंभरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियाँ और उस के द्वार की कुर्सियाँ और निवास और आंगन के चारों ओर के खंभे भी बनाये गये ॥

**३९. फिर** उन्होंने ने नीले बैजनी और लाही रंग

के कपड़े के पवित्रस्थान में की सेवकाई के लिये काढ़े हुए बख और हारून के लिये भी पवित्र बख बनाये जैसे कि यहोवा ने मूसा को आशा दी थी ॥

और उस ने एपोद को सोने और नीले बैजनी और लाही रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया । और उन्होंने ने सोना पीट पीटकर उस के पत्तर बनाये फिर पत्तरों को काट काटकर तार बनाये और तारों को न ले बैजनी और लाही रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कड़ाई की बनावट से मिला दिया । एपोद के जोड़ने को उन्होंने उस के

- कंधों पर के बंधन बनाये वह तां अपने दोनों सिरों से  
 ५ जोड़ा गया । और उस के कसने के लिये जो काढ़ा हुआ  
 पटुका उस पर बना वह उस के साथ बिन जोड़ का और  
 उसी का बनावट के अनुसार अर्थात् सोने और नीले बैजनी  
 और लाही रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के  
 कपड़े का बना जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥
- ६ और उन्होंने ने सुलैमान मणि काटकर उन में इस्राएल  
 के पुत्रों के नाम जैसा छापना खोदा जाता है वैसे ही खोदे  
 ७ और सोने के खानों में जड़ दिये । और उस ने उन का  
 एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया जिस से इस्राएलियों  
 के लिये स्मरण करानेहारे मणि ठहरें जैसे कि यहोवा ने  
 मूसा को आज्ञा दी थी ॥
- ८ और उस ने चपरास को एपोद की नाई सोने की  
 और नीले बैजनी और लाही रंग के कपड़े की और  
 सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की कढ़ाई का काम की  
 ९ हुई बनाया । चपरास तो चांकोर बनी और उन्होंने ने उस  
 को दोहरी बनाया और वह दाहरी होकर एक बिन्ता लंबी  
 १० और एक बिन्ता चौड़ी बनी । और उन्होंने ने उस में चार  
 पांति मणि जड़े पहिली पांति में तो माणिक्य पद्मराग  
 ११ और लालड़ी जड़ी । और दूसरी पांति में मरकत नील  
 १२ मणि और हीरा और तीसरी पांति में लशम सूर्यकान्त  
 १३ और नीलग और चौथी पांति में फीरोजा सुलैमानी  
 मणि और यशब जड़े ये सब अलग अलग सोने के  
 १४ खानों में जड़े गये । और ये मणि इस्राएल के पुत्रों के  
 नामों की गनती के अनुसार बारह ये बारहो गोत्रों में  
 से एक एक का नाम जैसा छापना खोदा जाता है वैसे  
 १५ ही खोदा गया । और उन्होंने ने चपरास पर डोरियों की  
 १६ नाई गूथे हुए चोखे सोने के तोड़े बनाकर लगाये । फिर  
 उन्होंने ने सोने के दो खाने और सोने की दो कड़ियां  
 बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर  
 १७ लगाया । तब उन्होंने ने सोने के दोनों गूथे हुए तोड़ों को  
 १८ चपरास के सिरों पर की दोनों कड़ियों में लगाया । और  
 गूथे हुए दोनों तोड़ों के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने ने  
 दोनों खानों में जड़ के एपोद के साम्हने पर दोन कंधों  
 १९ के बंधनों पर लगाया । और उन्होंने ने सोने की और दो  
 कड़ियां बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उस की उस  
 २० कोर पर जो एपोद की भीतरबार थी लगाई । और उन्होंने  
 ने सोने की दो और कड़ियां भी बनाकर एपोद के दोनों  
 कंधों के बंधनों पर नीचे से उस के साम्हने और जोड़ के  
 २१ गस एपोद के काठे हुए पटुके के ऊपर लगाई । तब  
 उन्होंने ने चपरास को उस की कड़ियों के द्वारा एपोद की  
 कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एपोद के काठे

हुए पटुके के ऊपर रहे और चपरास एपोद से अलग न  
 होने पाए जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

फिर एपोद का बागा सम्पूर्ण नीले रंग का बनाया गया । २२  
 और उस को बनावट ऐसी हुई कि उस के बीच बखतर के २३  
 छेद के समान एक छेद बना और छेद के चारों ओर एक  
 कोर बनी कि वह फटने न पाए । और उन्होंने ने उस के नीचे २४  
 वाले घेरे में नीले बैजनी और लाही रंग के कपड़े के अनार  
 बनाये । और उन्होंने ने चोखे सोने की घंटियां भी बनाकर २५  
 बागे के नीचेवाले घेरे के चारों ओर अनार के बीच बीच  
 लगाई । अर्थात् बागे के नीचेवाले घेरे को चारों ओर एक २६  
 सोने की घंटी और एक अनार फिर एक सोने की घंटी  
 और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा  
 टहल करें जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

फिर उन्होंने ने हारून और उस के पुत्रों के लिये बुनी २७  
 हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के अंगरखे और सूक्ष्म सनी के २८  
 कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुन्दर टोपियां  
 और सूक्ष्म बटा हुई सनी के कपड़े का गांधिया । और २९  
 सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले बैजनी और  
 लाही रंग की कागचोर्बा काम का फटा इन सभी को  
 बनाया जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

फिर उन्होंने ने पांच मुकुट का पटरी का चोखे सोने ३०  
 का बनाया और जैसे छापे में वैसे ही उस में ये अक्षर  
 खोदे अर्थात् यहोवा के लिये पांच । और उन्होंने ने उस ३१  
 में नीला फीता लगाया जिस में वह ऊपर पगड़ी पर रहे  
 जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

सो मिलापवाले तंबू के निवास का सब काम निपट ३२  
 गया और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को  
 दी थी इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया ॥

तब वे निवास को मूसा के पास ले आये अर्थात् ३३  
 अंकड़ों तखतों बेंड़ों खंभों कुर्सियों आदि सारे सामान समेत  
 तंबू और लाल रंग से रंगी हुई मेढों की खालों का ३४  
 ओहार और सूइसों की खालों का ओहार और बीच का  
 पर्दा, ड्यडों सहित साक्षीपत्र का सन्दूक और प्रायश्चित्त ३५  
 का ढकना । सारे सामान समेत मेज और भेंट की रौंटी ३६  
 सारे सामान सहित दीवट और उस की सजावट के दीपक ३७  
 और उजियाला देने के लिये तेल सोने की वेदी और ३८  
 अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तम्बू के द्वार  
 का पर्दा पीतल की भंभरी ड्यडों और सारे सामान ३९  
 समेत पीतल की वेदी और पाये समेत हीदी, खंभों और ४०  
 कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार का  
 पर्दा और डोरियां और खंटे और मिलापवाले तंबू के  
 निवास की सेवकाई का सारा सामान, पवित्रस्थान में ४१

सेवा टहल करने के लिये काढ़े हुए बरुन और हारून याजक के पवित्र बरुन और उस के पुत्र के बरुन जिन्हें ४२ पहिने हुए वे याजक का काम करें। जो जो आशा यहोवा ने मूसा को दी थीं उन सब के अनुसार इस्राएल ४३ लियोंने यह सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम पर दृष्ट करके देखा कि इन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया है और मूसा ने उन की आशीर्वाद दिया ॥ (यहोवा के निवास के खड़े किये जाने और उस की प्रतिष्ठा होने का वर्णन)

२ ४०. फिर यहोवा ने मूसा से कहा पहिले महीने के पाँहले दिन का तू मिलापवाले ३ तंबू के निवास को खड़ा कर देना। और उस में साक्षीपत्र के संदूक को रखकर बीचवाले पर्दे की ओट में कर ४ देना। और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है सो सजाना तब दीवट को भीतर ले जाके ५ उस के दीपकों को बार देना। और साक्षीपत्र के संदूक के साम्हने सोने की वेदी को जो धूप के लिये है उन्हें ६ रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना। और मिलापवाले तंबू के निवास के द्वार के साम्हने होमवेदी ७ को रखना। और मिलापवाले तंबू और वेदी के बीच ८ होदी को रखके उस में जल भरना। और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना और उस आंगन के ९ द्वार पर पर्दे को लटकाना देना। और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उस में होगा सब का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उस को पवित्र १० करना सो वह पवित्र ठहरेगा। और सब सामान समेत होमवेदी का अभिषेक करके उस को पवित्र करना सो ११ वह परमपवित्र ठहरेगी। और पाये समेत होदी का भी १२ अभिषेक करके उसे पवित्र करना। और हारून और उस के पुत्रों को मिलापवाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल १३ से नहलाना। और हारून को पवित्र बरुन पहनाना और उस का अभिषेक करके उस का पवित्र करना कि वह १४ मेरे लिये याजक का काम करे। और उस के पुत्रों को १५ ले जाकर अंगरखे पहनाना। और जैसे तू उन के पिता का अभिषेक करे वैसे ही उन का भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिये याजक का काम करें और उन का अभिषेक उन की पीढ़ी पीढ़ी के लिये उन के सदा के याजकपद १६ का चिह्न ठहरेगा। और मूसा ने यों किया कि जो जो आज्ञा यहोवा ने उस को दी थी उस के अनुसार उसने किया ॥ १७ और दूसरे बरस के पहिले महीने के पहिले दिन को १८ निवास खड़ा किया गया। और मूसा ने निवास का खड़ा कर या और उस की कुर्सियां धर उस के तखन लगाके उन में बँडे डाले और उस के खंभों को खड़ा किया।

और उस ने निवास के ऊपर तंबू को फैलावाया फिर तंबू १९ के ऊपरवार उस के ओहार को लगाया जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उस ने साक्षीपत्र को २० लेके संदूक में रक्खा और संदूक में डण्डों को लगाके उस के ऊपर प्रायश्चित्त के टकने को धरा। और उस ने २१ संदूक को निवास में पहुँचवाया और बीचवाले पर्दे को लटकवाके साक्षीपत्र के संदूक को उस की ओट में किया जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उस ने २२ मिलापवाले तंबू में निवास की उत्तर अलंग पर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगावाया। और उस पर उस ने २३ यहोवा के सन्मुख रोटी सजाकर रक्खी जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उस ने मिलापवाले तंबू २४ में मेज के साम्हने निवास की दक्खिन अलंग पर दीवट को रक्खा। और उस ने दीपकों को यहोवा के सन्मुख २५ बार दिया जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उस ने मिलापवाले तंबू में बीच के पर्दे के साम्हने २६ सोने की वेदी को रक्खा। और उस ने उस पर सुगंधित २७ धूप जलाया जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उस ने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया। २८ और मिलापवाले तंबू के निवास के द्वार पर होमवेदी को २९ रखकर उस पर होमबलि और अन्नबलि को चढाया जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उस ने ३० मिलापवाले तंबू और वेदी के बीच होदी को रखकर उस में धोने के लिये जल डाला। और मूस और हारून और ३१ उस के पुत्रों ने उस में अपने अपने हाथ पाँव धोये। और जब जब वे मिलापवाले तंबू में वा वेदी के पास ३२ जाते तब तब वे हाथ पाँव धोते थे जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उस ने निवास के चारों ओर ३३ और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटकाना दिया। यों मूसा ने सब काम को निपटा दिया ॥

तब बादल मिलापवाले तंबू पर छा गया और यहोवा ३४ का तेज निवासस्थान में भर गया। और बादल जो ३५ मिलापवाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवासस्थान में भर गया इस कारण मूसा उस में प्रवेश न कर सका। और इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा ३६ होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कूच करते थे। और याद वह न उठता ३७ तो जिस दिन लों वह न उठता उस दिन लों वे कूच न करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को ३८ तो यहोवा का बादल निवास पर और रात का उसी बादल में आग उन सभों को दिखाई दिया करती थी ॥

# लैव्यव्यवस्था नाम पुस्तक ।

(होमबलि की विधि)

- २ १. यहोवा ने मिलापवाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उस से कहा इच्छाएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिये पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उस का बलिपशु गायबैलों वा भेड़बकरियों (इन) में से एक का हो ॥
- ३ यदि वह गायबैलों में से होमबलि करे तो निर्दोष नर मिलापवाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे । और वह अपना हाथ होमबलिपशु के सिर पर टेके और वह उस के लिये प्रायश्चित्त करने का ग्रहण किया जाएगा । तब वह उस बछड़े को यहोवा के साम्हने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लोहू का समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़कें जो
- ४ मिलापवाले तंबू के द्वार पर है । फिर वह होमबलिपशु की खाल निकालकर उस पशु का टुकड़े टुकड़े करे । तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजाकर धरें । और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चरबी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरें ।
- ५ और वह उस की अन्तरियों और पैरों को जल से धोए तब याजक सब का वेदी पर जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिये सुखदायक सुगंधवाला हव्य ठहरे ॥
- ६ और यदि वह भेड़ों वा बकरों में का होमबलि चढ़ाए तो निर्दोष नर का चढ़ाए । और वह उस को यहोवा के आगे वेदी की उत्तरवाली अलंग पर बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उस के लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़कें । और वह उस को टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चरबी को अलग करे और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजाके धरे जो वेदी की आग पर होगी । और वह उस की अन्तरियों और पैरों को जल से धोए और याजक सब को समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिये सुखदायक सुगंधवाला हव्य ठहरे ॥
- ७ और यदि वह यहोवा के लिये पक्षियों में का होमबलि चढ़ाए तो पिंहुकों वा कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए । याजक उस को वेदी के समीप ले जाकर उस का गला मरोड़के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए और

उस का सारा लोहू उस वेदी की अलंग पर गिराया जाए और वह उस का ओम्भ मल साहित निकालकर वेदी की १६ पूरब ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे । और वह उस को पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग न करे १७ और याजक उस का वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिये सुखदायक सुगंधवाला हव्य ठहरे ॥

(अन्नबलि की विधि)

## २. और जब कोई यहोवा के लिये अन्नबलि

का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डाल लोबान रखे । और वह उस को हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं ले जाए और अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से अपनी मुट्ठी भर निकाले और लोबान सारा निकाल ले और याजक उन्हें स्मरण दिलानेहारे भाग के लिये वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिये सुखदायक सुगंधवाला हव्य ठहरे । और अन्नबलि में से जो बचा रहे सो हारून और उस के पुत्रों का ठहरे वह यहोवा के हव्यों में की परमपवित्र वस्तु होगी ॥

और जब तू तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा अन्नबलि करके चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों वा तेल से चुपड़ी हुई बिन अखमीरी पर्पाइयों का हो । और यदि तेरा चढ़ावा तबे पर पकाया हुआ अन्नबलि हो तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो । उस को टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना वह अन्नबलि हो जाएगा । और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाही में पकाया हुआ अन्नबलि हो तो वह भी तेल समेत मैदे का हो । और जो अन्नबलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए और याजक अन्नबलि में से स्मरण दिलानेहारा भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिये सुखदायक सुगंधवाला हव्य ठहरे । और अन्नबलि में से जो बचा रहे वह हारून और उस के पुत्रों का ठहरे वह यहोवा के हव्यों में की परमपवित्र वस्तु होगी । कोई अन्नबलि जिसे तुम यहोवा के लिये चढ़ाओ खमीर के साथ बनाया न जाए न तो खमीर को हव्य करके यहोवा

- १२ के लिये जलाना और न मधु को । उन्हें पहिली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिये चढ़ाना पर वे सुखदायक
- १३ सुगंधवाली वस्तुएं करके वेदी पर चढ़ाये न जाएं । फिर अपने सब अन्नबलियों को लाना करना और अपना कोई अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के लोन से रहित होने न देना अपने सब चढ़ावों के साथ लोन भी चढ़ाना ॥
- १४ और यदि तू यहोवा के लिये पहिली उपज का अन्नबलि चढ़ाए तो अपनी पहिली उपज के अन्नबलि के लिये आग से फुलसाई हुई हरी हरी बालें अर्थात् हरी
- १५ हरी बालों का मीजके निकाला हुआ अन्न चढ़ाना । उस पर तेल डालना और लांबान रखना वह अन्नबलि हो
- १६ जाएगी । और याजक उस में के मीजके निकाले हुए अन्न और उस पर के तेल में से कुछ और उस पर का सारा लोबान स्मरण दिलानेहारा भाग करके जलाए कि वह यहोवा के लिये हव्य ठहरे ॥

(मेलबलि की विधि)

### ३. और यदि उस का चढ़ावा मेलबलि का

- हो यदि वह गायबैलों में से चढ़ाए तो चाहे वह पशु नर हो चाहे मादी पर जो निदोष हो
- २ उन्हीं को वह यहोवा के आगे चढ़ाए । और वह अपने चढ़ावे के सिर पर हाथ टेके और उस को मिलापवाले तंबू के द्वार पर बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उस के लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़कें ।
- ३ और वह मेलबलि में से यहोवा के लिये हव्य चढ़ाए अर्थात् जिस चरबी से अन्तरियां ढपी रहती हैं और जो
- ४ चरबी उन में लिपटी रहती है वह भी और दोनों गुदों और जो चरबी उन के ऊपर और लंक के पास रहती है और गुदों समेत कलेजे के ऊपर की भिल्ली इन सभी को
- ५ वह अलग करे । और हारून के पुत्र इन को वेदी पर उ० होमबलि के ऊपर जो आग की लकड़ी पर होगा जलाए कि यह यहोवा के लिये सुखदायक सुगंधवाला हव्य ठहरे ॥
- ६ और यदि यहोवा के मेलबलि के लिये उस का चढ़ावा भेड़बकरियों में से हो तो चाहे वह नर हो चाहे
- ७ मादी पर जो निदोष हो उसी को वह चढ़ाए । यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो वह उस को यहोवा के
- ८ साम्हने चढ़ाए । और वह अपने चढ़ावे के सिर पर हाथ टेके और उस को मिलापवाले तंबू के आगे बलि करे और हारून के पुत्र उस के लोहू को वेदी की चारों
- ९ अलंगों पर छिड़कें । और मेलबलि में से वह चरबी को यहोवा के लिये हव्य करके चढ़ाए अर्थात् उस की चरबी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे और

जिस चरबी से अन्तरियां ढपी रहती हैं और जो चरबी उन में लिपटी रहती है वह भी और दोनों गुदों और जो चरबी उन के ऊपर और लंक के पास रहती है और गुदों समेत कलेजे के ऊपर की भिल्ली इन सभी को भी वह अलग करे । और याजक इन्हें वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिये हव्यरूपी भोजन ठहरे ॥

और यदि वह बकरा वा बकरी चढ़ाए तो वह उस को यहोवा के साम्हने चढ़ाए । और वह उस के सिर पर हाथ टेककर उस को मिलापवाले तंबू के आगे बलि करे और हारून के पुत्र उस के लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़कें । और वह उस में से अपना चढ़ावा यहोवा के लिये हव्य करके चढ़ाए अर्थात् जिस चरबी से अन्तरियां ढपी रहती हैं और जो चरबी उन में लिपटी रहती है वह भी और दोनों गुदों और जो चरबी उन के ऊपर और लंक के पास रहती है और गुदों समेत कलेजे के ऊपर की भिल्ली इन सभी को वह अलग करे । और याजक इन्हें वेदी पर जलाए यह तो हव्यरूपी भोजन और सुखदायक सुगंध ठहरेगा क्योंकि सारी चरबी यहोवा की है । यह तुम्हारे निवासी में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिये सदा की विधि ठहरे कि तुम न तो कुछ चरबी खाओ और न कुछ लोहू ॥

(पापबलि की विधि)

### ४. फिर यहोवा ने मृसा से कहा इस्राएलियों

से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जो यहोवा ने बरजे हैं कोई काम भूल से करके पापी हो जाए और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिस से प्रजा को दोष लगे तो अपने पाप के कारण वह एक निदोष बछड़ा यहोवा को पापबलि करके चढ़ाए । और वह उस बछड़े को मिलापवाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उस के सिर पर हाथ टेके और बछड़े को यहोवा के साम्हने बलि करे । और अभिषिक्त याजक बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर मिलापवाले तंबू में ले जाए । और याजक लोहू में अंगुली घेरे और उस में से कुछ लेकर पवित्रस्थान के भीचवाले पर्दे के आगे यहोवा के साम्हने सात बार छिड़के । और याजक उस लोहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलापवाले तंबू में है यहोवा के साम्हने लगाए फिर बछड़े के और सब लोहू को मिलापवाले तंबू के द्वार पर की होमवेदी के पाये पर उडेले । फिर वह पापबलि के बछड़े की सब चरबी को उस से अलग करे अर्थात् जिस चरबी से अन्तरियां ढपी रहती हैं और जितनी चरबी उन में लिपटी रहती है वह भी और

दोनों गुदों और जो चरबी उन के ऊपर और लंक के पास रहती है और गुदों समेत कलेजे के ऊपर की गिच्छी इन १० सभों को वह ऐसे अलग करे, जैसे मेलबलिवाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किये जायेंगे और याजक इन को ११ होमवेदी पर जलाए । और बछड़े की खाल पांव सिर १२ अन्तरियां गोबर और सारा मांस, निदान समूचा बछड़ा वह छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर आग में जलाए जहां राख डाली जाएगी वहीं वह जलाया जाए ॥

१३ और यदि इस्त्राएल की सारी मण्डली भूल में पड़के पाप करे और वह बात उस के अनजान में तो रहे तो भी वह यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके १४ दोषी हो, तो जब उस का किया हुआ पाप प्रगट हो जाए तब मण्डली एक बछड़े को पापबलि करके चढ़ाए । १५ वह उसे मिलापवाले तंबू के आगे ले जाए, और मण्डली के पुरनिये अपने अपने हाथों को बछड़े के सिर पर यहोवा के आगे टेकें और वह बछड़ा यहोवा के साम्हने १६ बलि किया जाए । और अभिषिक्त याजक बछड़े के लोहू १७ में से कुछ मिलापवाले तंबू में ले जाए । और याजक लोहू में अंगुली बोरकर बीचवाले पर्दे के आगे यहोवा १८ के साम्हने छिड़के और जो वेदी यहोवा के आगे मिलापवाले तंबू में है उस के सींगों पर वह कुछ लोहू लगाए और सब लोहू को मिलापवाले तंबू के द्वार पर की १९ होमवेदी के पाये पर उंडेले । और वह बछड़े की सारी २० चरबी निकाल कर वेदी पर जलाए । और जैसे पापबलि के बछड़े से करना है वैसे ही इस से भी करे इस भांति याजक इस्त्राएलियों के लिये प्रायश्चित्त करे तब उन का २१ वह पाप क्षमा किया जाएगा । और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे उसे पहिले बछड़े को जलाना है यह तो मण्डली के निमित्त पापबलि ठहरेगा ॥

२२ जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात् अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ २३ करके दोषी हो, और उस का पाप उस पर प्रगट हो जाए, २४ तो वह एक निर्दोष बकरा चढ़ावा करके ले आए और बकरे के सिर पर हाथ टेके और बकरे का वहां बलि करे जहां होमबलिपशु यहोवा के आगे बलि किया जाएगा २५ यह ता पापबलि ठहरेगा । और याजक अपनी अंगुली से पापबलिपशु के लोहू में से कुछ लेकर होमवेदी के सींगों पर लगाए और उस का लोहू होमवेदी के पाये पर २६ उंडेले । और वह उस की सारी चरबी का मलबाल का चरबी की नाई वेदी पर जलाए और याजक उस के

पाप के विषय में प्रायश्चित्त करे तब वह क्षमा किया जाएगा ॥

और यदि अधारण लोगों में से कोई भूख से पाप २७ करे अर्थात् यहोवा का बर्जा हुआ कोई काम करके दोषी हो, और उस का वह पाप उस पर प्रगट हो जाए तो वह २८ उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी चढ़ावा करके ले आए । और वह पापबलिपशु के सिर पर हाथ टेके और २९ होमबलि के स्थान पर पापबलिपशु को बलि करे । और ३० याजक उस के लोहू में से अपनी अंगुली से कुछ लेकर होमवेदी के सींगों पर लगाए और उस के सब लोहू को उसी वेदी के पाये पर उंडेले । और वह उस की सब ३१ चरबी को मेलबलिपशु की चरबी की नाई अलग करे, तब याजक उस को वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध करके जलाए और याजक उस के लिये प्रायश्चित्त करे तब वह क्षमा किया जाएगा ॥

और यदि वह पापबलि के लिये एक मेड़ी का बच्चा ३२ चढ़ावा करके ले आए तो यह निर्दोष मादी न हो । और ३३ वह पापबलिपशु के सिर पर हाथ टेके और उस को पापबलि करके वहां बलि करे जहां होमबलिपशु बलि किया जाएगा । और याजक अपनी अंगुली से पापबलि के लोहू में से कुछ ३४ लेकर होमवेदी के सींगों पर लगाए और उस के और सब लोहू का वेदी के पाये पर उंडेले । और वह उस की सब ३५ चरबी का मेलबलिवाले मेड़ के बच्चे की चरबी की नाई अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हव्यों के ऊपर जलाए और याजक उस के पाप के लिये प्रायश्चित्त करे और वह क्षमा किया जाएगा ॥

(दोषबलि की विधि)

५. और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे

कि सोह खिलाकर यों पूछने पर भी कि क्या तु ने यह सुना वा जानता है बात प्रगट न करे तो उस को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा । और २ यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अनजान में छुए तो चाहे वह अशुद्ध अनेले पशु की चाहे अशुद्ध घरेले पशु की चाहे अशुद्ध रेंगनेहारे जीवजन्तु की लीथ हो तो वह अशुद्ध हाकर दोषी ठहरेगा । और यदि कोई जन मनुष्य ३ की किसी अशुद्ध वस्तु का अनजान में छुए चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी प्रकार की क्यों न हो जिस से लाग अशुद्ध होते हैं तो जब वह उसे जान लेंगा तब दोषी ठहरेगा । और यदि कोई अनजान में बुरा ब भला ४ करने को बिना सोचे समझे सोह खाए, चाहे वह किसी प्रकार की बात बिना सोच विचार किये सोह खाकर कहे तो जान लेने के पीछे वह ऐसी किसी बात में दोषी

५ ठहरेगा । और जब वह ऐसी किसी बात में दोषी हो तब जिम् विषय में उस ने पाप किया हो उस को वह मान ले । और वह यद्वा के लिये अपना दोषबलि ले आए अर्थात् उस पाप के कारण वह एक भेड़ वा बकरी पाप बलि करके ले आए तब याजक उस पाप के विषय उस के लिये प्रायश्चित्त करे । और यदि उसे भेड़ वा बकरी देने का सामर्थ्य न हो तो अपने पाप के कारण दोपिंडुकी वा कबूतरी के दो बच्चे दोषबलि करके यद्वा के पास ले आए उन में से एक तो पापबलि और दूसरा होमबलि ८ ठहरे । और वह उन को याजक के पास ले आए और याजक पापबलिवाले का पाँहले चढ़ाए और उस का स ९ गले से मरोड़ डाले पर अलग न करे । और वह पापबलिपशु के लो में से कुछ वेदी की अलग पाँ छिड़के और जो लोहू बचा रहे वह वेदी के पाये पर गिराया १० जाए वह तो पापबलि ठहरेगा । और दूसरे पक्षी को वह बाध के अनुसार होमबलि करे और याजक उस के पाप का प्रायश्चित्त करे और वह क्षमा किया जाएगा ॥

११ और यदि वह दोपिंडुकी वा कबूतरी के दो बच्चे भी न दे सके तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का दसवां भाग मैदा पापबलि करके ले आए उस पर न तो वह तेल डाले न लोधान रखे क्योंकि वह पाप १२ बलि होगा । वह उस को याजक के पास ले जाए और याजक उस में से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दलानेहारा भाग जानकर वेदी पर यद्वा के हव्यों के ऊपर जलाए वह १३ तो पापबलि ठहरेगा । और इन बातों में से किसी बात के विषय में जो कोई पाप करे याजक उस का प्रायश्चित्त करे और वह पाप क्षमा किया जाएगा । और इस पापबलि का शेष अन्नबलि के शेष की नाई याजक का ठहरे ॥

१४, १५ फिर यद्वा ने मूसा से कहा, यदि कोई यद्वा की पाँवत्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल स विश्वासघात करके पापी ठहरे तो वह यद्वा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोषबलि करके ले आए उस का दाम पाँवत्रस्थान के शौकेल के लेखे में उतने शौकेल रूप का हो जितने १६ याजक ठहराए । और जिस पाँवत्र वस्तु के विषय उस ने पाप किया हो उस को वह पाँचवा भाग बढ़ाकर भर दे और याजक को दे और याजक दोषबलि का मेढ़ा चढ़ा कर उस के लिये प्रायश्चित्त करे तब उस का पाप क्षमा किया जाएगा ॥

१७ और यदि कोई ऐसा पाप करे कि यद्वा का बजा हुआ कोई काम करे तो चाहे वह उस के अनजान में भी हुआ हो तो भी वह दोषी ठहरेगा और उस को अपने १८ अधर्म का भार उठाना पड़ेगा । सो वह एक निर्दोष

मेढ़ा दोषबलि करके याजक के पास ले आए वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए और याजक उस के लिये उस की उस भूल का जो उस ने अनजाने की हो प्रायश्चित्त करे और वह क्षमा की जाएगी । यह दोषबलि १९ ठहरे क्योंकि वह मनुष्य निःसन्देह यद्वा का दोषी ठहरेगा ॥

६. फिर यद्वा ने मूसा से कहा, यदि कोई यद्वा का विश्वासघात करके पापी २ ठहरे जैसा कि धरोहर वा लेनदेन वा लूट के विषय में अपने भाई को छले वा उस पर अंधेर करे, वा पड़ी हुई वस्तु को पाकर उस के विषय भूठ बोले और भूठ किरिया भी खाए, ऐसी कोई बात क्यों न हो जिसे करके मनुष्य पापी होते हैं, तो जब वह ऐसा पाप करके दोषी हो जाए, ४ तब चाहे कोई वस्तु हो जो उस ने लूट वा अंधेर करके वा धरोहर वा पड़ी पाई हो चाहे कोई वस्तु क्यों न हो ५ जिस के विषय में उस ने भूठी किरिया खाई हो तो वह उस को पूरा करके और पाँचवा भाग बढ़ाकर भर दे जिस दिन वह दोषी ठहरे, उसी दिन वह उस वस्तु को उस के स्वामी को दे । और वह यद्वा के लिये अपना ६ दोषबलि भी ले आए अर्थात् एक निर्दोष मेढ़ा दोषबलि करके याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए । और याजक उस के लिये ७ यद्वा के साम्हने प्रायश्चित्त करे और जो कोई काम करके वह दोषी हो गया होगा वह क्षमा किया जाएगा ॥

(भाँति भाँति के बलिदानों की विधि)

फिर यद्वा ने मूसा से कहा, हारून और उस के ८, ९ पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होमबलि की व्यवस्था यह है अर्थात् होमबलि ईधन के ऊपर रात भर और लो वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की आग वेदी पर जलती रहे । और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन १० पर अपनी सनी की जाँघिया पहनकर होमबलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे । तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे ११ वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए । और वेदी की आग वेदी पर जलती रहे वह १२ बुझने न पाए और भोर भोर को याजक उस पर लकड़ी जलाकर उस पर होमबलि के टुकड़ों को सजाकर धर दे और उस के ऊपर मेलबलियों की चरबी को जलाए । वेदी पर आग लगातार जलती रहे वह कभी बुझने १३ न पाए ॥

अन्नबलि की व्यवस्था यह है कि हारून के पुत्र १४ उस को यद्वा के साम्हने वेदी के आगे समीप ले आए । और वह अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर १५

- और उस पर का सारा लोधान उठाकर अन्नबलि के स्मरण दिलानेहारे इस भाग को यहोवा के लिये सुख-
- १६ दायक सुगंध करके वेदी पर जलाए । और उस में से जो बचा रहे उसे हारून और उस के पुत्र खाएं, वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए अर्थात् वे
- १७ मिलापवाले तंबू के आंगन में उसे खाएं । वह खमीर के साथ पकाया न जाय क्योंकि मैं ने अपने हव्यों में से उस को उन का निज भाग होने के लिये उन्हें दिया है सो जैसा पापबलि और दोषबलि परमपावत्र हैं वैसा ही वह भी है । हारून के वंश में के सब पुरुष उस में से खा सकते हैं तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हव्यों में से यह उन का हक सदा लों बना रहे जो कोई उन हव्यों को छूए वह पवित्र ठहरे ॥
- १८, २० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून अभिषिक्त हो उस दिन वह अपने पुत्रों समेत यहोवा के यह चढ़ावा चढ़ाए अर्थात् एपा का दसवां भाग मैदा नित्य अन्नबलि करके चढ़ाए उस में से आधा तो भोर
- २१ का और आधा मांस को चढ़ाए । वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना इस अन्नबलि के पके हुए टुकड़े यहोवा
- २२ के लिये सुखदायक सुगन्ध करके चढ़ाना । और उस के पुत्रों में से जा उस के याजकपद पर अभिषिक्त होगा वह भा उसे चढ़ाया कर यह सदा की विधि
- २३ है कि वह यहोवा के लिये संपूर्ण जलाया जाए । बरन याजक के सब अन्नबलि संपूर्ण जलाये जाए वे खाए न जाए ॥
- २४, २५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उस के पुत्रों से यह कह कि पापबलि की व्यवस्था यह है अर्थात् जिस स्थान में होमबलिपशु बलि किया जाएगा उसी में पापबलिपशु भी यहोवा के साम्हने बलि किया
- २६ जाए वह परमपावत्र है । और जो याजक पापबलि का चढ़ानेहारा हो सो उसे खाए वह पवित्र स्थान में अर्थात्
- २७ वह मिलापवाले तंबू के आंगन में खाया जाए । जो कुछ उस के मांस सं छू जाए वह पावत्र ठहरे और यदि उस के लोहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़े तो जिस पर उस के
- २८ छींटे पड़े हों उस को किसी पवित्र स्थान में धोना । और यदि वह मट्टी के पात्र में सिझाया गया हो तब तो वह पात्र ताड़ा जाए पर जो वह पीतल के पात्र में सिझाया गया हो तो वह मांजा और जल से धोया जाए ।
- २९ याजकों में के सब पुरुष उस में से खा सकते हैं क्योंकि
- ३० वह परमपावत्र ठहरे । पर जिस पापबलिपशु के लोहू में से कुछ मिलापवाले तंबू के भीतर पवित्रस्थान में

प्रायश्चित्त करने को पहुंचाया जाए उस का मांस खाया न जाए वह आग में जलाया जाए ॥

## ७ फिर दोषबलि की व्यवस्था यह है । वह

- परमपावत्र ठहरे । जिस स्थान पर
- २ होमबलिपशु का बलि करेंगे उसी पर दोषबलिपशु को भी बलि करे और उस के लोहू का याजक वदी पर चारों ओर छिड़के । और वह उस में का सब चरबी को चढ़ाए
- ३ अर्थात् मोटी पूंछ और जिस चरबी से अन्तरियां ढपी रहती हैं वह भी, और दोनों गुदों और जो चरबी उन के ऊपर और लंक के पास रहती है और गुदा समत कलेजे के ऊपर की फिलती इन ममां का वह अलग करे । और
- ४ याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हव्य करके जलाए सो वह दोषबलि ठहरेगा । याजकों में के सब पुरुष उस
- ५ में से खा सकते हैं वह किसी पावत्र स्थान में खाया जाए क्योंकि वह परमपावत्र है । जैसा पापबलि है वैसा ही
- ६ दोषबलि भी है उन दोनों की एक ही व्यवस्था है जो याजक उन बलियों का चढ़ा के प्रायश्चित्त करे व उसी के ठहरे । और जो याजक किसी के होमबलि का चढ़ाए
- ७ उस होमबलिपशु का खाल उसी याजक की ठहरे । और तंबूर में वा कढ़ाही में वा तवे पर पके हुए सब अन्नबलि चढ़ानेहारे याजक ही के ठहरे । और सब अन्नबलि चाहे
- ८ तेल से सने हुए हों चाहे रखे वे हारून के सब पुत्रों के ठहरे व एक समान उन सभा को मिलें ॥

- और मेलबलि जिसे कोई यहोवा के लिये चढ़ाए उस
- ११ की व्यवस्था यह है । यदि वह उसे धन्यवाद के लिये
- १२ चढ़ाए तो धन्यवादबलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां और तेल से सने हुए मैदे के तेल से तर फुलके चढ़ाए । और वह
- १३ अपने धन्यवादवाले मेलबलि के साथ अखमीरी रोटियां भी चढ़ाए । और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक
- १४ एक रोटी यहोवा को उठाई हुई भेंट करके चढ़ाए वह मेलबलि के लोहू के छिड़कनेहारे याजक की ठहरे । और
- १५ उस के धन्यवादवाले मेलबलि का मांस चढ़ाने के दिन ही खाया जाए उस में से वह बिहान लों कुछ रहने न दे । पर यदि उस के बलिदान का चढ़ावा मन्नत का वा
- १६ स्वेच्छा का हो तो उस बलिदान का जिस दिन वह चढ़ाए उस दिन वह खाया जाए और उस में से जो बचा रहे वह दूसरे दिन भी खाया जाए । पर जो कुछ बलिदान
- १७ के मांस में से तीसरे दिन लों रह जाए वह आग में जलाया जाए । और उस के मेलबलि के मांस में से यदि
- १८ कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह ग्रहण न किया जाएगा और न लेखे में गिना जाएगा वह चिनीना ठहरेगा



- और जो प्राणी उस में से खाए उसे अपने अधर्म का  
 १९ भार उठाना पड़ेगा । फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से  
 छू जाए वह खाया न जाए वह भाग में जलाया जाए ।  
 २० फिर मेलबलि का मांस जितने शुद्ध हों वे तो खाएँ, पर जो  
 प्राणी अशुद्ध होकर यहोवा के मेलबलि के मांस में से कुछ  
 २१ खाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए । और यदि  
 कोई प्राणी कोई अशुद्ध वस्तु छूकर यहोवा के मेलबलि-  
 पशु के मांस में से खाए तो वह भी अपने लोगों में से  
 नाश किया जाए चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु वा  
 अशुद्ध पशु चाहे कोई भी अशुद्ध और धिनोनी वस्तु हो ॥  
 २२, २३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से  
 यों कह कि तुम लोग न तो बैल की कुछ चरबी खाना  
 २४ और न भेड़ वा बकरी की । और जो पशु आप से मरे  
 और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उस की चरबी से कोई  
 और काम करना तो करना पर उसे किसी प्रकार से  
 २५ खाना नहीं । जो प्राणी ऐसे पशु की चरबी खाए जिस  
 में से लोग कुछ यहोवा के लिये हव्य करके चढ़ाया करते  
 हैं वह खानेद्वारा अपने लोगों में से नाश किया जाए ।  
 २६ और तुम अपने किसी घर में किसी भांति का लोहू चाहे  
 २७ पक्षी चाहे पशु का हो न खाना । हर एक प्राणी जो  
 किसी भांति का लोहू खाए वह अपने लोगों में से नाश  
 किया जाए ॥  
 २८, २९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से  
 यों कह कि जो यहोवा के लिये मेलबलि चढ़ाए वह उसी  
 ३० मेलबलि में से यहोवा के पास चढ़ावा ले आए । वह  
 अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को अर्थात् छाती समेत  
 चरबी को ले आए कि छाती हिलाने की भेंट करके  
 ३१ यहोवा के साम्हने हिलाई जाए । और याजक चरबी को  
 तो वेदी पर जलाए पर छाती हारून और उस के पुत्रों की  
 ३२ ठहरे । फिर तुम अपने मेलबलियों में से दाहिनी जांघ को  
 ३३ भी उठाई हुई भेंट करके याजक को देना । हारून के  
 पुत्रों में से जो मेलबलि के लोहू और चरबी का चढ़ाए  
 ३४ दाहिनी जांघ उसी का भाग ठहरे । क्योंकि इस्राएलियों  
 के मेलबलियों में से मैं हिलाई हुई भेंटवाली छाती और  
 उठाई हुई भेंटवाली जांघ उन से लेकर हारून याजक  
 और उस के पुत्रों को दे देता हूँ कि वे दोनों इस्राएलियों  
 की ओर से सदा के लिये उन का हक ठहरे ॥  
 ३५ जिस दिन हारून और उस के पुत्र यहोवा के याजक  
 होने के लिये समीप किये गये उसी दिन यहोवा के हव्यों में  
 ३६ से उन का यही अभिषेकवाला भाग ठहरा, अर्थात् जिस  
 दिन यहोवा ने उन का अभिषेक कराया उसी दिन उस  
 ने आज्ञा दी कि उन को इस्राएलियों की ओर से ये ही

भाग मिला करे । तो उन की पीढ़ी पीढ़ी के लिये उन  
 का यह हक ठहरा । । होमबलि और अन्नबलि और पाप- ३७  
 बलि और दोषबलि और याजकों के संस्कारवाले बलि  
 और मेलबलि की व्यवस्था यही है । अब यहोवा ने सीनै ३८  
 पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्रा-  
 एली मेरे लिये क्या क्या चढ़ावे चढ़ाएँ तब उस ने उन  
 को यही व्यवस्था दी ॥

(याजकों के संस्कार का वखन)

८. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और २  
 उस के पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के  
 तेल और पापबलि के बछड़े और दोनों मेंदों और अखमीरों  
 रोटी की टोकरी सहित, मिलापवाले तंबू के द्वार पर ले ३  
 आ और वहीं सारी मण्डली का इकट्ठा कर । यहोवा की ४  
 इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मण्डली  
 मिलापवाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई । तब मूसा ने ५  
 मण्डली से कहा जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी  
 है वह यह है । फिर मूसा ने हारून और उस के पुत्रों ६  
 को समीप ले जाकर जल से नहलाया । तब उस ने उस ७  
 को अंगरखा पहनाकर फटा बांधकर बागा पहना दिया  
 और एपोद लगाकर एपोद के काढे हुए पट्टे के से एपोद ८  
 को बांधकर कस दिया । और उस ने उस के चपरास ८  
 लगाकर चपरास में ऊरीम और तुम्मीम रख दिये । तब ९  
 उस ने उस के सिर पर पगड़ी का बांधकर पगड़ी के  
 साम्हने पर सोने के टीके को अर्थात् पवित्र मुकुट को  
 लगाया जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ।  
 तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो १०  
 कुछ उस में था उस सब का भी अभिषेक करके उन्हें  
 पवित्र किया । और उस तेल में से कुछ उस ने वेदी ११  
 पर सात बार छिड़का और सारे सामान समेत वेदी  
 का और पाये समेत हैदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र  
 किया । और उस ने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून १२  
 के सिर पर डालकर उस का अभिषेक करके उसे  
 पवित्र किया । फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले १३  
 आ अंगरखे पहनाकर फटे बांधके उन के सिर पर  
 टोपी दी जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ।  
 तब वह पापबलिवाले बछड़े को समीप ले गया और १४  
 हारून और उस के पुत्रों ने अपने अपने हाथ पापबलि-  
 वाले बछड़े के सिर पर टेके । तब वह बलि किया १५  
 गया और मूसा ने लोहू को लेकर उंगली से वेदी के चारों  
 सींगों पर लगाकर पावन किया और लोहू को वेदी के  
 पाये पर उडेल दिया और उस के लिये पायश्चित्त करके  
 उस को पवित्र किया । और मूसा ने अन्तरियों पर की १६

सब चरबी और कलेजे पर की भिल्ली और चरबी समेत  
 १७ दोनों गुदों को लेकर वेदी पर जलाया । और बछड़े में से  
 जो कुछ रह गया उस को अर्थात् गोबर समेत उस की  
 लाल और मांस को उस ने छावनी से बाहर आग में  
 जलाया जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ।  
 १८ फिर वह होमबलिवाले मेढ़े को समीप ले गया और हारून  
 और उस के पुत्र ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर  
 १९ टेके । तब वह बलि किया गया और मूसा ने उस का  
 २० लोहू वेदी पर चारों ओर छिड़का । तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े  
 २१ का जलाया । तब अन्तारिया और पांच जल से धोये गये  
 और मूसा ने सम्पूर्ण मेढ़े को वेदी पर जलाया और वह  
 सुखदायक सुगंध देनेहारा होमबलि और यहोवा के लिये  
 २२ हव्य हो गया जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी  
 थी । फिर वह दूसरे मेढ़े को जो संस्कारवाला मेढ़ा था  
 समीप ले गया और हारून और उस के पुत्रों ने अपने  
 २३ अपने हाथ मेढ़े के सिर पर टेके । तब वह बलि किया  
 गया और मूसा ने उस के लोहू में से कुछ लेकर हारून  
 के दाहने कान के सिरे पर और उस के दाहने हाथ  
 २४ और दाहने पांच के अंगुठों पर लगाया । और वह हारून  
 के पुत्रों को समीप ले गया और लोहू में से कुछ एक  
 एक के दाहने कान के सिरे पर और दाहने हाथ और  
 दाहने पांच के अंगुठों पर लगाया और मूसा ने लोहू को  
 २५ वेदी पर चारों ओर छिड़का । और उस ने चरबी और  
 मोटी पूंछ और अन्तारियों पर की सब चरबी और कलेजे  
 पर की भिल्ली समेत दोनों गुदों और दाहनी जांच ये सब  
 २६ लेकर अलग रखे, और अखमीरी रोटी की टोकरी जो  
 यहोवा के आगे धरी थी उस में से एक रोटी और तेल  
 से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर  
 २७ चरबी और दाहनी जांच पर रख दी, और ये सारी वस्तुएं  
 हारून और उस के पुत्रों के हाथ पर धर दीं और हिलाई  
 २८ हुई भेंट होने के लिये यहोवा के आगे हिलवाई । और  
 मूसा ने इन को उन के हाथ पर से लेकर वेदी पर होमबलि  
 के ऊपर जलाया वह सुखदायक सुगंध देनेहारी संस्कार-  
 २९ वाली भेंट और यहोवा के लिये हव्य हुआ । तब मूसा ने  
 आती को लेकर हिलाई हुई भेंट होने के लिये यहोवा के  
 आगे हिलाया और संस्कारवाले मेढ़े में से मूसा का भाग  
 यही ठहरा जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ।  
 ३० और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लोहू  
 दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उस के बच्चों पर  
 और उस के पुत्रों और उन के बच्चों पर भी छिड़का और  
 उस ने बच्चों समेत हारून को और बच्चों समेत उस के

पुत्रों को भी पवित्र किया । और मूसा ने हारून और ३१  
 उस के पुत्रों से कहा मांस को मिलापवाले तंबू के द्वार पर  
 सिम्नाओ और उस रोटी समेत जो संस्कारवाली टोकरी में  
 है वहीं खाओ जैसे मैं ने आज्ञा दी कि हारून और उस  
 के पुत्र उसे खाएं । और मांस और रोटी में से जो बचा ३२  
 रहे उसे आग में जलाना । और जब लों तुम्हारे संस्कार ३३  
 के दिन पूरे न हों तब लों अर्थात् सात दिन लों मिलाप-  
 वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना क्योंकि वह सात दिन  
 लों तुम्हारा संस्कार करता रहेगा । जैसे आज किया गया ३४  
 वैसे ही यहोवा ने करने की आज्ञा दी है कि तुम्हारा  
 प्रायश्चित्त किया जाए । सो तुम मिलापवाले तंबू के द्वार ३५  
 पर सात दिन लों दिन रात ठहरके यहोवा की आज्ञा को  
 मानते रहो न हो कि मर जाओ क्योंकि ऐसी आज्ञा मुझे  
 दी गई है । यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार ३६  
 जो उस ने मूसा के द्वारा दी थी हारून और उस के  
 पुत्रों ने किये ॥

६. श्रावण दिन मूसा ने हारून और उस के  
 पुत्रों को और इस्राएली पुरनियों को  
 बुलवाकर, हारून से कहा पापबलि के लिये एक निर्दोष २  
 बछड़ा और होमबलि के लिये एक निर्दोष मेढ़ा लेकर  
 यहोवा के साम्हने चढ़ा । और इस्राएलियों से यह कह ३  
 कि तुम पापबलि के लिये एक बकरा और होमबलि के  
 लिये एक बछड़ा और एक मेढ़े का बच्चा लो वे दोनों ४  
 बरस दिन के और वे निर्दोष हों । और यहोवा के साम्हने  
 मेलबलि करने को एक बैल और एक मेढ़ा और तेल से ५  
 सने हुए मैदे का एक अन्नबलि भी लो क्योंकि आज  
 यहोवा तुम को दर्शन देगा । सो जिस जिस वस्तु की ५  
 आज्ञा मूसा ने दी उन सब को वे मिलापवाले तंबू के  
 आगे ले गये और सारी मण्डली समीप जाकर यहोवा के  
 साम्हने खड़ी हुई । तब मूसा ने कहा यहोवा ने तुम्हारे ६  
 करने के लिये जिस काम की आज्ञा दी है सो यह है  
 और यहोवा का तेज तुम को देख पड़ेगा । और मूसा ने ७  
 हारून से कहा यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के  
 समीप जाकर अपने पापबलि और होमबलि को चढ़ा के  
 अपने और सारे लोगों के लिये प्रायश्चित्त कर और लोगों  
 के चढ़ावे को भी चढ़ाके उन के लिये प्रायश्चित्त कर ।  
 सो हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पापबलिवाले ८  
 बछड़े को बलि किया । और हारून के पुत्र लोहू को उस ९  
 के पास ले गये तब उस ने अपनी अंगुली को लोहू में  
 धोरकर लोहू को वेदी के सींगों पर लगाया और लोहू को  
 वेदी के पाये पर उंडेल दिया । और पापबलि में की १०  
 चरबी और गुदों और कलेजे पर की भिल्ली को उस ने

वेदी पर जलाया जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ।  
 ११ और मांस और खाल को उस ने छावनी से बाहर आग  
 १२ में जलाया । तब होमबलिपशु बलि किया गया और  
 १३ हारून के पुत्रों ने लोहू को उस के हाथ में दिया और  
 १४ उस ने उस को वेदी पर चारों ओर छिड़का । तब उन्हों  
 १५ ने होमबलिपशु टुकड़ा टुकड़ा करके मस से उस के  
 १६ हाथ में दिया और उस ने उन का वेदा पर जलाया ।  
 १७ और उस ने अन्तरियां और पावों को धोकर वेदी पर  
 १८ होमबलि के ऊपर जलाया । और उस ने लोगों के चढ़ावे  
 १९ को समीप ले जाकर उस पापबलिवाले बकरे को जो उन  
 २० के लिये था बलि किया और पहिले के समान उसे भी  
 २१ पापबलि करके चढ़ाया । और उस ने होमबलि को भी  
 २२ समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया । और अन्नबलि  
 २३ को भी समीप ले जाकर उस में से मुट्टी भर वेदा पर  
 २४ जलाया यह भारवाले होमबलि के सिवाय चढ़ाया गया ।  
 २५ और बैल और मंदा अर्थात् जो मेलबलिपशु लोगों के  
 २६ लिये थे वे भी बलि किये गये और हारून के पुत्रों ने लोहू  
 २७ को उस के हाथ में दिया और उस ने उस को वेदी पर  
 २८ चारों ओर छिड़का । और उन्हों ने बैल की चरबी को  
 २९ और मेढे में से मोटी पूंछ को और जिस चरबी से अन्त-  
 ३० रियां ढगी रहती हैं उस को और गुर्दे समेत कलेजे पर  
 ३१ की झिल्ली को उस के हाथ में दिया । और उन्हों ने चरबी  
 ३२ को छातियों पर रक्त्वा और उस ने चरबी को वेदी पर  
 ३३ जलाया । पर छातियां और दाहिनी जांघ को हारून ने  
 ३४ मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिये  
 ३५ यहोवा के साम्हने हलाया । तब हारून ने लोगों की  
 ३६ ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीवाद दिया और जहां  
 ३७ उस ने पापबलि होमबलि और मेलबलियों को चढ़ाया  
 ३८ वहां से वह उतर आया । तब मूसा और हारून मिलाप-  
 ३९ वाले तंबू में गये और निकलकर लोगों को आशीवाद  
 ४० दिया तब यहोवा का तेज सब लोगों को देख पड़ा । और  
 यहोवा के साम्हने से आग निकल कर चरबी समेत  
 होमबलि को वेदी पर भस्म कर गई, इसे देखकर  
 सब लोगो ने जयजयकार किया और अपने अपने मुंह के  
 बल गिरे ॥

(नादाब और अबीहू के भस्म होने का वर्णन)

१०. तब नादाब और अबीहू नाम हारून के  
 दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान ले  
 उन में उपरी आग जिस की आज्ञा यहोवा ने न दी थी  
 रखकर उस पर धूप दिया और उस आग को यहोवा के  
 २ साम्हने ले गये । तब यहोवा के साम्हने से आग ने

निकलकर उन को भस्म कर दिया और वे यहोवा के  
 साम्हने मर गये । तब मूसा हारून से बोला यह बड़ी है ३  
 जो यहोवा ने कहा था कि मैं अपने समीप आनेहारों के  
 बीच पावन ठहराया जाऊंगा और सारे लोगों के साम्हने  
 महिमा पाऊंगा और हारून चुप रहा । तब मूसा ने ४  
 मीशाएल और एलसापान को जो हारून के चचा  
 उजीफल के पुत्र थे बुलाकर कहा निकट आओ और अपने  
 भतीजों को पवित्रस्थान के आगे से उठाकर छावनी से  
 बाहर ले जाओ । मूसा की इस आज्ञा के अनुसार ५  
 निकट जाकर उन को अंगरखों सहित उठाकर छावनी से  
 बाहर ले गये । तब मूसा ने हारून से और उस के पुत्र ६  
 एलाजार और ईतामार से कहा तुम लोग अपने सिरों के  
 बाल मत खिराओ और न अपने बखों को फाड़ो न हो  
 कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उस का कोप  
 भड़के पर इस्राएल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे  
 भाईबंधु हैं वे तो यहांवा की लगई हुई आग पर बिलाप  
 करें । और तुम लोग मिलापवाले तंबू के द्वार के बाहर ७  
 न जाना न हो कि तुम मर जाओ क्योंकि यहोवा के  
 अभियेक का तेल तुम पर लगा हुआ है । मूसा के इस  
 वचन के अनुसार उन्हों ने किया ॥

फिर यहोवा ने हारून से कहा कि, जब जब तू वा ८. ९  
 तेरे पुत्र मिलापवाले तंबू में आए तब तब तुम में से कोई  
 न तो दाखमधु पिये हो न आर किसी प्रकार का मद्य न हो  
 कि मर जाओ तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि ठहरी रह  
 जिस से तुम पवित्र अपवित्र में और शुद्ध अशुद्ध में अन्तर १०  
 कर सको, और इस्राएलिय का वे सब बाधया सिखा ११  
 सको जो यहोवा ने उन को मूसा से सुनवा दी हैं ॥

फिर मूसा ने हारून से और उस के बचे हुए दाना १२  
 पुत्र ईतामार और एलाजार से भी कहा यहोवा के हव्या  
 में से जो अन्नबाल बचा है उसे लेकर वेदी के पास बना  
 खमार खाओ क्योंकि वह परमपावन है । सा तुम उसे १३  
 किसी पावन स्थान में खाओ यह तो यहोवा के हव्यों में से  
 तेरा और तेरे पुत्रों का हक है मैं ने ऐसी ही आज्ञा पाई  
 है । और हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई १४  
 भेंट की जांघ को तुम लोग अर्थात् तू आर तेरे बेटे वांटिय  
 सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ क्योंकि वे इस्राएलिय  
 के मेलबलियों में से तुम्हें और तेरे लड़केवालों को हक  
 करके दी गई हैं । चरबी के हव्या समेत जा उठाई १५  
 हुई जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के साम्हने  
 हिलाने के लिये आया करगा ये भाग यहोवा की आज्ञा  
 के अनुसार सदा को बाध की रीति से तेरे और तेरे  
 लड़केवालों के होंगे ॥

१६ और मूसा ने पापबलिवाले बकरे की जो टूंड टांड की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है तो एलाजार और ईसामार जो हारून के पुत्र बचे थे उन से वह कोप करके कहने लगा, पापबलि जो परमपवित्र है और यहोवा ने जो उस को तुम्हें इस लिये दिया है कि तुम मण्डली के अधर्म का भार उठाकर उस के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करो तो उस का मांस तुम ने पवित्र-स्थान में क्यों नहीं खाया । देखो उस का लोहू पवित्र-स्थान के भीतर तो लाया न गया निस्सन्देह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उस के मांस को पवित्र-स्थान में खाते । इस का उत्तर हारून ने मूसा को यों दिया कि देख आज ही के दिन उन्होंने ने अपने पापबलि और हांमबलि को यहोवा के साम्हने चढ़ाया फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी हैं तो यदि मैं ने आज पापबलि का खाया होता तो क्या यह यहोवा के लेखे में अच्छा ठहरता । जब मूसा ने यह सुना तब वह उस के लेखे में अच्छा ठहरा ॥

(शुद्ध अशुद्ध मांस की विधि)

२ ११. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जितने पशु पृथिवी पर हैं उन सभी में से तुम इन जीव-धारियों का मांस खा सकते हो । पशुओं में से जितने चिरे वा फटे खुरवाले होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो । पर पागुर करनेहारों वा फटे खुरवालों में से इन पशुओं को न खाना अर्थात् ऊंट जो पागुर तो करता है पर चिरे खुर का नहीं होता इस लिये वह तुम्हारे लिये अशुद्ध ठहरा है । और शापान जो पागुर तो करता पर चिरे खुर का नहीं होता वह भी तुम्हारे लिये अशुद्ध है । और खरहा जो पागुर तो करता है पर चिरे खुर का नहीं होता इस लिये वह भी तुम्हारे लिये अशुद्ध है । और सूअर जो चिरे अर्थात् फटे खुरवाला होता तो है पर पागुर नहीं करता इस लिये वह तुम्हारे लिये अशुद्ध है । इन के मांस में से कुछ न खाना वरन इन की लोथ को छूना भी नहीं ये तो तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं ॥

६ फिर जितने जलजन्तु हैं उन में से तुम इन्हें खा सकते हो अर्थात् समुद्र वा नदियों के रहनेहारों में से जितनों के पंख और चोये होते हैं उन्हें खा सकते हो ।

१० और जलचारी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोये के समुद्र वा नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिये धिनौने हैं । वे तुम्हारे लेखे धिनौने ठहरें तुम उन के मांस में से कुछ न खाना और उन की लोथों को

धिनौनी जानना । जल में जिस किसी जन्तु के पंख और चोये नहीं होते वह तुम्हारे लिये धिनौना है ॥

फिर पक्षियों में से इन को धिनौना जानना ये धिनौने होने के कारण खाए न जाएं अर्थात् उकाब हड़फोड़ कुरर, शाही और भांति भांति की चील, और भांति १४, १५ भांति के सब काग, शुतुर्मुर्ग तखमास जलकुक्कुट और भांति भांति के बाज, हवासिल हाड़गील उल्लू, राजहंस धनेश गिद्ध, लगलग भांति भांति के बगुले टिटीहरी १८, १९ और चमगीदड़ ॥

जितने पंखवाले चार पांवों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिये धिनौने हैं । पर रेंगनेहारे और पंखवाले जो चार पांवों के बल चलते हैं जिन के भूमि पर फांदने का टांगें होती हैं उन को तो खा सकते हो । वे ये हैं अर्थात् भांति भांति की टिड्डी भांति भांति के फनगे भांति भांति के हगोल और भांति भांति के हागाव । पर और सब रेंगनेहारे पंखवाले जो चार पांववाले होते हैं वे तुम्हारे लिये धिनौने हैं ॥

और इन के कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे जिस किसी से इन की लोथ छू जाए वह सांभ लो अशुद्ध ठहरे । और जो कोई इन की लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांभ लो अशुद्ध रहे । फिर जितने पशु चिरे खुरवाले होते हैं पर न तो बिलकुल फटे खुरवाले न पागुर करनेहारे हैं वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं जो कोई उन्हें छूए वह अशुद्ध ठहरे । और चार पांव के बल चलनेहारों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं जो कोई उन की लोथ छूए वह सांभ लो अशुद्ध रहे । और जो कोई उन की लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांभ लो अशुद्ध रहे क्योंकि न तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं ॥

और जो पृथिवी पर रेंगते हैं उन में से ये रेंगनेहारे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं अर्थात् नेउला चूहा और भांति भांति के गाह, और छिपकली मगर टिकाटिक सांडा और गिरगिटान । सब रेंगनेहारों में से ये ही तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं जो कोई इन की लोथ छूए वह सांभ लो अशुद्ध रहे । और इन में से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे चाहे वह काठ का कोई पात्र हो चाहे वस्त्र चाहे खाल चाहे बेगा चाहे किसी काम का कैसा ही पात्रादि क्यों न हो वह जल में डाला जाए और सांभ लो अशुद्ध रहे तब शुद्ध ठहरे । और मिट्टी का कोई पात्र हो जिस में इन जन्तुओं में से कोई पड़े तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे और पात्र को तुम तोड़ डालना । उस में जो खाने के

योग्य भोजन हो जिसमें पानी का कुछाब हो वह स्व  
अशुद्ध ठहरे फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिये कुछ  
३५ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे । और यदि इन की लोथ में  
का कुछ तंदूर वा चूल्हे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे  
३६ और तोड़ डाला जाए क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा वह  
तुम्हारे लेखे भी अशुद्ध ठहरे । पर सोता वा तालाब  
जिस में जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे पर जो कोई  
३७ इन की लोथ को छूए वह अशुद्ध ठहरे । और यदि इन  
की लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोन  
के लिये हो पड़े तो वह बीज शुद्ध रहे । पर यदि बीज  
पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उस  
पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लेखे अशुद्ध ठहरे ॥

३९ फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुम को दी  
गई है यदि उन में से कोई पशु मरे तो जो कोई उस  
४० की लोथ छूए वह सांभ लो अशुद्ध रहे । और उस की  
लोथ में से जो कोई कुछ खाए सो अपने बख धोए और  
सांभ लो अशुद्ध रहे और जो कोई उस की लोथ उठाए  
४१ वह भी अपने बख धोए और सांभ लो अशुद्ध रहे । और  
सब प्रकार के पृथिवी पर रेंगनेहारों घिनौने हैं वे खाए न  
४२ जाएं । पृथिवी पर सब रेंगनेहारों में से जितने पेट वा  
चार पांशों के बल चलते हैं वा अधिक पांशवाले होते हैं  
४३ उन्हें तुम न खाना क्योंकि वे घिनौने हैं । तुम किसी प्रकार  
के रेंगनेहारों जन्तु के द्वारा अपने आप को घिनौना न  
करना और न उन के द्वारा अपने को अशुद्ध करके  
४४ अशुद्ध ठहरना । क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं  
इस कारण अपने को पवित्र करके पवित्र बने रहो क्योंकि  
मैं पवित्र हूं इस लिये तुम किसी प्रकार के रेंगनेहारों जन्तु  
के द्वारा जो पृथिवी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध  
४५ न करना । क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश  
से इस लिये लं आया है कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरे इस  
कारण तुम पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं ॥

४६ पशुओं पक्षियों और सब जलचारी प्राणियों और  
पृथिवी पर सब रेंगनेहारों प्राणियों के विषय में यही  
४७ व्यवस्था है, कि शुद्ध अशुद्ध और भक्ष्य अभक्ष्य जीव-  
धारियों में भेद किया जाए ॥

(मस्ता के विषय की विधि)

२ १२. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसा-  
एलियों से कह कि जो स्त्री गर्भिणी  
हो कर लड़का जने उस को सात दिन की अशुद्धता  
लगे अर्थात् जैसे वह ऋतुमती हो कर अशुद्ध रहा करती  
३ है वैसे ही वह जनने पर भी अशुद्ध रहे । और आठवें दिन

लड़के का स्वतना किया जाए । फिर वह स्त्री अपने शुद्ध ४  
करनेहारे रुधिर में तैंतीस दिन रहे और जब लो उस के  
शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हों तब लो वह न तो किसी  
पवित्र वस्तु को छूए और न पवित्रस्थान में प्रवेश करे ।  
और यदि वह लड़की जने तो उस को ऋतुमती की सी ५  
अशुद्धता चौदह दिन की लगे और फिर त्रिंथासठ दिन  
लो अपने शुद्ध करनेहारे रुधिर में रहे । और जब उस ६  
के शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों तब चाहे वह बेटा जनी  
हो चाहे बेटा वह होमबलि के लिये बरस दिन का भेड़ी  
का बच्चा और पापबलि के लिये कबूतरी का एक बच्चा  
वा पिंडुकी मिलापवाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ७  
ले जाए । तब याजक उस को यहोवा के साम्हने चढ़ाके  
उस के लिये प्रायश्चित्त करे और वह अपने रुधिर के बहने  
की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी । जो स्त्री लड़का ८  
वा लड़की जने उस की यही व्यवस्था है । और यदि ९  
उसे भेड़ वा बकरी देने की पूंजी न हो तो दो पिंडुकी वा  
कबूतरी के दो बच्चे एक तो होमबलि और दूसरा पाप-  
बलि के लिये दे और याजक उस के लिये प्रायश्चित्त करे  
और वह शुद्ध ठहरेगी ॥

(काष्ठ की विधि)

१३. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,

जब किसी मनुष्य के चाम में सृजन २  
वा पपड़ी वा फूल हो और इस से उस के चाम में कोढ़  
की व्याधि सा कुछ देख पड़े तो वह हारून याजक के  
पास वा उस के पुत्र जो याजक उन में से किसी के पास  
पहुंचाया जाए । तब याजक उस के चाम की व्याधि को ३  
देखे और यदि उस व्याधि के स्थान के रोए उजले हो  
गये हों और वह व्याधि चाम से गहरी देख पड़े तो वह  
जान ले कि कोढ़ की व्याधि है सो याजक उस मनुष्य को  
देखकर उस को अशुद्ध ठहराए । और यदि वह फूल ४  
उस के चाम में उजला हो तो पर चाम से गहिरा न देख  
पड़े और न उस में के रोए उजले हो गये हों तो याजक  
उस को सात दिन लो बन्द कर रखे । और सातवें दिन ५  
याजक उस को देखे और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी  
बनी रहे और उस के चाम में फैली न हो तो याजक  
उस को और भी सात दिन लो बन्द कर रखे । और ६  
सातवें दिन याजक उस को फिर देखे और यदि देख  
पड़े कि व्याधि की चमक कम हुई और व्याधि चाम में  
नहीं फैली तो याजक उस को शुद्ध ठहराए उस के तो  
चाम में पपड़ी ठहरेगी सो वह अपने बख धोकर शुद्ध ७  
ठहरे । और यदि उस के पीछे कि वह शुद्ध ठहरने के  
लिये याजक को दिखाया जाए उस की पपड़ी चाम में

- बहुत फैल जाए तो वह फिर याजक को दिखाया जाए ।  
 ८ और यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चाम में फैल गई है तो वह उस को अशुद्ध ठहराए, कोढ़ ही तो है ॥  
 ९ यदि कोढ़ की सी व्याधि किसी मनुष्य के हो तो वह  
 १० याजक के पास पहुंचाया जाए । और याजक उस को देखे और यदि वह सूजन उस के चाम में उजली हो और उस के कारण रोएं भी उजले हो गये हों और उस सूजन में  
 ११ बिना चाम का मांस हो तो याजक जाने कि उस के चाम में पुराना कोढ़ है सो वह उस को अशुद्ध ठहराए  
 १२ और बन्द न रखे वह तो अशुद्ध है । और यदि कोढ़ किसी के चाम में फूटकर यहां लों फैल जाए कि जहां कहीं याजक देखे व्याधिमान के सिख से तलुवें लों कोढ़  
 १३ ने सारे चाम को छ्वा लिया हो तो याजक देखे और यदि कोढ़ ने उस के सारे शरीर को छ्वा लिया हो तो वह उस व्याधिमान को शुद्ध ठहराए उस का शरीर जो बिलकुल उजला हो गया होगा सो वह शुद्ध ही ठहरे ।  
 १४ पर जब उस में चामहीन मांस देख पड़े तब तो वह अशुद्ध ठहरे । और याजक चामहीन मांस को देखकर उस को अशुद्ध ठहराए क्योंकि वैसा चामहीन मांस अशुद्ध ही होता है उस में कोर लगा रहता है । पर यदि वह चामहीन मांस फिर उजला हो जाए तो वह मनुष्य  
 १५ याजक के पास जाए । तब याजक उस को देखे और यदि वह व्याधि फिर उजली हो गई हो तो याजक व्याधिमान को शुद्ध जान कर शुद्ध ही ठहराए ॥  
 १८ फिर यदि किसी के चाम में फोड़ा होकर चंगा हो गया हो और फोड़े के स्थान में उजली सी सूजन वा लाली लिये हुए उजला फूल हो तो वह याजक को दिखाया जाए । सो याजक उस सूजन को देखे और यदि वह चाम से गहिरा देख पड़े और उस के रोएं भी उजले हो गये हों तो याजक यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए कि वह फोड़े में से फूटी हुई कोढ़ की व्याधि है ।  
 १९ और यदि याजक देखे कि उस में उजले रोएं नहीं हैं और वह चाम से गहिरा नहीं और उस की चमक कम हुई है तो याजक उस मनुष्य को सात दिन लों बन्द कर  
 २० रखे । और यदि वह व्याधि तब लों चाम में सचमुच फैल जाए तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए वह व्याधि तो है । पर यदि वह फूल न फैले अपने स्थान ही पर बना रहे तो वह फोड़े का दाग है याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए ॥  
 २४ फिर यदि किसी के चाम में जलने का घाव हो और उस जलने के घाव में चामहीन फूल लाली लिये हुए  
 २५ उजला वा उजला ही हो जाए तो याजक उस को देखे

और यदि उस फूल में के रोएं उजले हो गये हों और वह चाम से गहिरा देख पड़े तो उस को जलने के दाग में से फूटा हुआ कोढ़ है याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए क्योंकि उस में कोढ़ की व्याधि ठहरेगी । और यदि याजक  
 २६ देखे कि फूल में उजले रोएं नहीं और न वह चाम से कुछ गहिरा है और उस की चमक कम हुई है तो वह उस को सात दिन लों बन्द कर रखे । और सातवें दिन  
 २७ याजक उस को देखे और यदि वह चाम में फैल गई हो तो वह उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, उस को कोढ़ की व्याधि है । पर यदि वह फूल चाम में न फैला अपने  
 २८ स्थान ही पर बना हो और उस की चमक कम हुई हो तो वह जलने की सूजन है याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए क्योंकि उस में जलने का दाग है ॥

फिर यदि किसी पुरुष वा स्त्री के सिर पर वा पुरुष  
 २९ की दाढ़ी में व्याधि हो तो याजक व्याधि को देखे और यदि वह चाम से गहरी देख पड़े और उस में भूरे भूरे पतले बाल हों तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए वह व्याधि सेंहुआं अर्थात् सिर वा दाढ़ी का कोढ़ है । और यदि याजक सेंहुए की व्याधि को देखे कि वह चाम  
 ३० से गहरी नहीं है और उस में काले काले बाल नहीं हैं तो वह सेंहुए के व्याधिमान को सात दिन लों बन्द कर रखे । और सातवें दिन याजक व्याधि को देखे तब यदि  
 ३१ वह सेंहुआं फैला न हो और उस में भूरे भूरे बाल न हों और सेंहुआं चाम से गहिरा न देख पड़े तो वह मनुष्य  
 ३२ मूड़ा तो जाए पर जहां सेंहुआं हो वहां न मूड़ा जाए और याजक उस सेंहुएवाले को और भी सात दिन लों बन्द कर रखे । और सातवें दिन याजक सेंहुए को देखे  
 ३३ और यदि वह सेंहुआं चाम में फैला न हो और चाम से गहिरा न देख पड़े तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए और वह अपने बाल धोके शुद्ध ठहरे । और यदि  
 ३४ उस के शुद्ध ठहरने के पीछे सेंहुआं चाम में कुछ भी फैले तो याजक उस को देखे और यदि वह चाम में फैला हो तो याजक यह भूरे बाल न दूँदे वह मनुष्य  
 ३५ अशुद्ध है । पर यदि उस की हांठ में वह सेंहुआं जैसे का तैसा बना हो और उस में काले काले बाल जमे हों तो वह जाने कि सेंहुआं चंगा हो गया है और वह मनुष्य  
 ३६ शुद्ध है सो याजक उस को शुद्ध ही ठहराए ॥

फिर यदि किसी पुरुष वा स्त्री के चाम में उजले  
 ३७ फूल हों तो याजक देखे और यदि उस के चाम में वे फूल कम उजले हों तो वह जाने कि उस को चाम में निकली हुई चाई ही हुई है वह मनुष्य शुद्ध ठहरे ॥

फिर जिस के सिर के बाल झड़ गये हों तो जानना ४०

- ४१ कि वह चन्दुला तां हे पर शुद्ध ही है । और जिस के सिर के आगे के बाल झड़ गये हों तो वह माथे का चन्दुला
- ४२ तो है पर शुद्ध ही है । पर यदि चन्दुले (सिर व चन्दुले माथे पर लाली लिये हुए उजली व्याधि हो तो जानना कि वह उस के चन्दुले सिर वा चन्दुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है । सो याजक उस को देखे और याद व्याधि की सूजन उस के चन्दुले (सिर व चन्दुले माथे पर ऐसी लाली लिये हुए उजली हो जैसा चाम के कोर में होता है तो वह कोढ़ी और अशुद्ध है सो याजक उस को अवश्य अशुद्ध ठहराए उस के सिर की व्याधि है ॥
- ४५ और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें और वह अपने ऊपरवाले होंठ को दापे हुए अशुद्ध अशुद्ध यां पुकारा करे । जितने दिन लो वह व्याधि उस में रहे उतने दिन लो वह जो अशुद्ध रहेगा इस लिये अशुद्ध ठहरा भी रहे सो वह अकेला रहा करे उस के रहने का स्थान छावनी से बाहर हो ॥
- ४७ फिर जिस वस्त्र में कोर की व्याधि हो चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे रानी का वह व्याधि चाहे उस सनी वा ऊन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में वा वह व्याधि चमड़े में वा चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में हो यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में वा चमड़े में वा चमड़े की किसी वस्तु में हरी सी वा लाल सी हो तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है और वह याजक को दिखाई जाए । और याजक व्याधि को देखे और व्याधिवाली वस्तु को सात दिन बन्द कर रखे ।
- ४९ और सातवें दिन वह उस व्याधि को देखे और याद वह वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में वा चमड़े में वा चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो तो जानना कि व्याधि गलित कोर है इस लिये वह वस्तु चाहे कैसे ही काम क्यों न आती हो तो भी अशुद्ध ठहरेगी । सो वह उस वस्त्र को जिस के ताने वा बाने में वह व्याधि हो चाहे वह ऊन का हो चाहे रानी का वा उस चमड़े की वस्तु को जलाए वह व्याधि गलित कोढ़ की है वह वस्तु आग में जलाई जाए । और यदि याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्त्र के ताने वा बाने में वा चमड़े की उस वस्तु में नहीं फैली तो जिस वस्तु में व्याधि हो उस के धोने की आशा दे । तब उसे और भी सात दिन लो बन्द कर रखे । और उस के धोने के पीछे याजक उस को देखे और यदि व्याधि का न तो रंग बदला हो और न व्याधि फैली हो तो जानना कि वह अशुद्ध है उसे आग में जलाना क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरवार की हो तो भी वह कटाव ठहरेगा । और यदि याजक देखे कि

उस के धोने के पीछे व्याधि की चमक कम हुई तो वह उस को वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने में से वा चमड़े में से फाड़ के निकाले । और यदि वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने वा बाने में वा चमड़े की उस वस्तु में देख पड़े तो जानना कि वह फूट के निकला हुई व्याधि है और जिस में वह व्याधि हो उसे आग में जलाना । और यदि उस वस्त्र से जिस के ताने वा बाने में व्याधि हो वा चमड़े की जो वस्तु हो उस में जब धोई जाए तब व्याधि जाती रही हो तो वह दूसरी बार धुल कर शुद्ध ठहरे । उन व सनी के वस्त्र में के ताने वा बाने में वा चमड़े की किसी वस्तु में जो कोर की व्याधि हो उस के शुद्ध अशुद्ध ठहराने की यही व्यवस्था है ॥

१४. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की यह व्यवस्था है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए । और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे और यदि उस की कोर की व्याधि चंगी हुई हो तो याजक आशा दे कि शुद्ध ठहरनेहारे के लिये दो शुद्ध और जीते पत्नी देवदारु की लकड़ी लाही रंग का कपड़ा और जूफा ये सब लिये जाएं । और याजक आशा दे कि एक पत्नी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए । तब वह जीते पत्नी का देवदारु की लकड़ी लाही के रंग के कपड़े और जूफा इन सभी समेत लेकर एक सग उस पत्नी के लोहू में जा बहते हुए जल के ऊपर बलि किया जाएगा और दो और कोर से शुद्ध ठहरनेहारे पर सात बार छड़ककर उस का शुद्ध ठहराए तब उस जीते हुए पत्नी को मैदान में छाड़ दे । और शुद्ध ठहरनेहारे अपने वस्त्रों को धो सब बाल मुंडाकर जल से स्नान करे तब वह शुद्ध ठहरे और उस के पीछे वह छावनी में तो आने जाए पर सात दिन लो अपने डेरे से बाहर रहे । और सातवें दिन वह सिर डाली और भौंहों के सब बाल मुंडाए बरन सब अंग शहन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे तब वह शुद्ध ठहरेगा । और आठवें दिन वह दो निर्दोष भेड़ के बच्चे और परम दिन को एक निर्दोष भेड़ को अच्छी और अन्नबलि के लिये तेल से मना हुआ घसा का तीन दसवें अंश मैदा और लोह भर तेल लाए । और शुद्ध ठहरानेहारे हाग याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध ठहरनेहारे मनुष्य को यहोवा के सन्मुख मिलापवाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे । तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोषबलि के लिये उसे और उस लोह भर तेल का समीप लाए और इन दोनों को हिलाने की भेंट करके यहोवा

१३ के साम्हने हिलाए । और वह उस मेड़ के बच्च का उसी स्थान में जहां वह पापबलि और होमबलि पशुओं को बलि किया करेगा अर्थात् पवित्रस्थान में बलि करे क्योंकि जैसा पापबलि याजक का ठहरेगा वैसा ही दोषबलि भी उसी का ठहरेगा वह परमपावत्र है । तब याजक दोषबलि के लोहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरनेहारे के दहिने कान के सिरे पर और उस के दहिने हाथ और दहिने पांव से अंगूठों पर लगाए । और याजक उस लोहू भर तेल में से कुछ लेकर अपने बायें हाथ की हथेली पर डाले । और याजक अपने दहिने हाथ की अंगुली को अपनी बाईं हथेली पर के तेल में औरके उस तेल में से कुछ अपनी अंगुली से यहोवा के सन्मुख सात बार छिड़के । और जो तेल उस की हथेली पर रह जाएगा याजक उस में से कुछ शुद्ध ठहरनेहारे के दहिने कान के सिरे पर और उस के दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर दोषबलि के लोहू के ऊपर लगाए । और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उस को वह शुद्ध ठहरनेहारे के सिरे पर डाल दे और याजक उस के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे । और याजक पापबलि को भी चढ़ाके उस के लिये जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध ठहरनेहारा हो प्रायश्चित्त करे और उस के पीछे होमबलिपशु को बलि करके अन्नबलि समेत वेदी पर चढ़ाए सो याजक उस के लिये प्रायश्चित्त करे और वह शुद्ध ठहरेगा ॥

२१ पर यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने का उस को पूजा न हो तो वह अपना प्रायश्चित्त कराने के लिये हिलाने को एक मेड़ का बच्चा दोषबलि के लिये और तेल से सना हुआ एपा का दसवां अंश मंदा अन्नबलि करके और लोहू भर तेल लाये और दो पिड्डक या कचूतरी के दो बच्चे लाए जैसे कि वह ला सके और इन में से एक तो पापबलि और दूसरा होमबलि हो । और आठवें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिये मिलापवाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख याजक के पास ले आए । तब याजक उस लोहू भर तेल और दोषबलिवाले मेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने का भट करके यहोवा के साम्हने हिलाए । फिर दोषबलिवाला मेड़ का बच्चा बलि किया जाए और याजक उस के लोहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरनेहारे के दहिने कान के सिरे पर और उस के दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर लगाए । फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बायें हाथ की हथेली पर डालकर अपने दहिने हाथ की अंगुली से अपनी बाईं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सन्मुख सात बार छिड़के । फिर याजक अपनी हथेली पर

क तेल में से कुछ शुद्ध ठहरनेहारे के दहिने कान के सिरे पर और उस के दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर दोषबलि के लोहू के स्थान पर लगाए । और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरनेहारे के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करने को उस के सिरे पर डाल दे । तब वह पिड्डक या कचूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए । अर्थात् जो पक्षी वह ला सका हो उन में से वह एक को पापबलि करके और अन्नबलि समेत दूसरे को होमबलि करके चढ़ाए इस रीति याजक शुद्ध ठहरनेहारे के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे । जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उस के इतनी पूजा न हो कि शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके उस के लिये यही व्यवस्था है ॥

फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब ३३, ३४ तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिये तुम्हें देता हूँ उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊँ तो जिस का वह घर हो सो आकर याजक को यों बता दे कि मुझे ऐसा देख पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है । तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिये मेरे जाने से पहिले उसे खाली करो ऐसा न हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक देखने को भीतर जाए । तब वह उस व्याधि को देखे और यदि यह व्याधि घर की भीतों पर हरी हरी सी वा लाल लाल सी मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें भीत में गहिरा देख पड़तीं हों तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को सात दिन लो बन्द कर रखे । और सातवें दिन याजक आकर देखे और यदि वह व्याधि घर की भीतों पर फैल गई हो तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों की व्याधि है उन्हें निकाल कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दो । और वह घर के भीतर भीतर चारों ओर खुरचवा दे और वह खुरचन नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाय । और लोग दूसरे पत्थर लेकर पहिले पत्थरों के स्थान में लगाएं और याजक दूसरा गारा लेकर घर पर फेरे । और यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के पीछे वह व्याधि फिर घर में फूट निकले तो याजक आकर देखे और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है वह अशुद्ध है । और वह सब गारे समेत पत्थर लकड़ी बरत सारे घर को खुदवा कर गिरा दे और उन सब वस्तुओं को उठवा कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंकवा दे ।



- ४६ और जब लां वह घर बन्द रहे तब लां यदि कोई उस में  
 ४७ जाए तो वह सांभ लां अशुद्ध रहे । और जो कोई उस  
 घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए और जो कोई उस  
 ४८ घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए । और  
 यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया तब से  
 उस में व्याधि नहीं फैली तो यह जानकर कि वह व्याधि  
 ४९ दूर हो गई है घर को शुद्ध ठहराए । और वह घर को  
 पाप छुड़ाके पावन करने के लिये दो पक्षी देवदारु की  
 ५० लकड़ी लाही रङ्ग का कपड़ा और जूफा लिवा लाए और  
 एक पक्षी को बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में  
 ५१ बाल करे । तब वह देवदारु की लकड़ी लाही रङ्ग के कपड़े  
 और जूफा इन सभों समेत जीते हुए पक्षी को लेकर बलि  
 किये हुए पक्षी के लोहू में और बहते हुए जल में बोर दे  
 ५२ और उन से घर पर सात बेर छिड़के । और वह पक्षी के  
 लोहू और बहते हुए जल और जीते हुए पक्षी और  
 देवदारु की लकड़ी और जूफा और लाही रङ्ग के कपड़े के  
 ५३ द्वारा घर को पाप छुड़ाके पावन करे । तब वह जीते हुए  
 पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे इसी रीति से  
 वह घर के लिये प्रायश्चित्त करे तब वह शुद्ध ठहरेगा ॥  
 ५४, ५५ सब भांति के कोढ़ की व्याधि और संहुए, और  
 ५६ शूल और घर के कोढ़, और सृजन और पपड़ी और  
 ५७ फूल के लक्षण में, शुद्ध अशुद्ध ठहराने की शिक्षा की  
 व्यवस्था यही है । सारे कोढ़ की व्यवस्था यही है ॥  
 (ऐसे लोगों की विधि जिन के प्रमेह हो)

- २ १५. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,  
 इस्राएलियों से यां कहो कि जिस  
 जिस पुरुष के प्रमेह हो वह उस कारण अशुद्ध ठहरे ।  
 ३ और चाहे बहता रहे चाहे बहना बन्द भी हो तो भी उस  
 ४ की अशुद्धता ठहरेगी । जिस के प्रमेह हो वह जिस जिस  
 बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे और जिस जिस वस्तु  
 ५ पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे । और जो कोई उस के  
 बिछौने को छूए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से  
 ६ स्नान करे और सांभ लां अशुद्ध ठहरा रहे । और जिस  
 के प्रमेह हो वह जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जो कोई  
 बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और  
 ७ सांभ लां अशुद्ध ठहरा रहे । और जिस के प्रमेह हो उस  
 से जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से  
 ८ स्नान करे और सांभ लां अशुद्ध रहे । और जिस के  
 प्रमेह हो वह यदि किसी शुद्ध मनुष्य पर धूके तो वह  
 अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांभ लां  
 ९ अशुद्ध रहे । और जिस के प्रमेह हो वह सवारी की जिस  
 १० वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे । और जो कोई किसी

वस्तु को जो उस के नीचे रही हो छूए वह सांभ लां  
 अशुद्ध रहे और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए  
 वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांभ  
 लां अशुद्ध रहे । और जिस के प्रमेह हो वह जिस किसी ११  
 को बिन हाथ धोए छूए वह अपने वस्त्रों को धोकर  
 जल से स्नान करे और सांभ लां अशुद्ध रहे । और जिस १२  
 के प्रमेह हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छूए वह  
 तोड़ डाला जाए और काठ के सब प्रकार के पात्र जल  
 से धोये जाएं । फिर जिस के प्रमेह हो वह जब अपने १३  
 रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के सात दिन  
 गिन ले और उन के बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर  
 बहते हुए जल से स्नान करे तब वह शुद्ध ठहरेगा । और १४  
 आठवें दिन वह दो पिड्डक वा कबूतरी के दो बन्धे  
 लेकर मिलापवाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख  
 जाकर उन्हें याजक को दे । तब याजक उन में से एक १५  
 को पापबलि और दूसरे को होमबलि करके चढ़ाए और  
 याजक उस के लिए उस के प्रमेह के कारण यहोवा के  
 साम्हने प्रायश्चित्त करे ॥

फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य स्वबालत हा जाए १६  
 तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांभ लां  
 अशुद्ध रहे । और जिस किसी वस्त्र वा चमड़े पर वह १७  
 वीर्य पड़े वह जल से धोया जाए और सांभ लां अशुद्ध  
 रहे । और जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों १८  
 जल से स्नान करे और सांभ लां अशुद्ध रहे ॥

फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती हो तो वह सात दिन १९  
 लां अशुद्ध ठहरी रहे और जो कोई उस को छूए वह  
 सांभ लां अशुद्ध रहे । और जब लां वह अशुद्ध रहे तब २०  
 लां जिस जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु  
 पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे । और जो कोई उस के २१  
 बिछौने को छूए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान  
 करे और सांभ लां अशुद्ध रहे । और जो कोई किसी २२  
 वस्तु को छूए जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्रों  
 धोकर जल से स्नान करे और सांभ लां अशुद्ध रहे ।  
 और यदि बिछौने वा और किसी वस्तु पर जिस पर वह २३  
 बैठी हो छूने के समय उस का शर्धर लगा हो तो छूनेद्वारा  
 सांभ लां अशुद्ध रहे । और यदि कोई पुरुष उस से २४  
 प्रसंग करे और उस का शर्धर उस के लग जाए तो वह  
 पुरुष सात दिन लां अशुद्ध रहे और जिस जिस बिछौने  
 पर वह लेटे वे सब अशुद्ध ठहरे ॥

फिर यदि कोई स्त्री अपने ऋतु के योग्य समय को छोड़ २५  
 बहुत दिन रजस्वला रहे वा उस योग्य समय से आधिक  
 ऋतुमती रहे तो जब लां वह ऐसी रहे तब लां वह अशुद्ध

- २६ ठहरी रह । उस के श्रुतमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिलौने पर वह लेटे वे सब उस के रजसवाले बिलौने के समान ठहरे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उस के श्रुतमती रहने के योग्य दिनों की नाह अशुद्ध
- २७ ठहरे । और जो कोई उन वस्तुओं को छूए वह अशुद्ध ठहरे सो वह अपने बच्चों को धोकर जल से स्नान करे
- २८ और साँभ ल. अशुद्ध रहे । और जब वह स्त्री अपने श्रुतु से शुद्ध हो जाए तब से वह सात दिन गिन ले
- २९ और उन के धीतने पर वह शुद्ध ठहरे । फिर आठवें दिन वह दो पिड्डक वा कबूतरी के दो बच्चे लेकर मिलापवाले
- ३० तम्बू के द्वार पर याजक के पास जाए । तब याजक एक को पापबलि और दूसरे को होमबलि करके चढ़ाए और याजक उस के लिये उस के रजस की अशुद्धता के कारण यहोवा के साम्हने प्रार्थश्चित्त कर ॥
- ३१ इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उन का अशुद्धता से न्यारे कर रख्यो कहीं ऐसा न हो कि वे यहोवा के निवास को जो उन के बीच है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए ॥
- ३२ जिस के प्रमेह हो और जो पुरुष वीर्य स्वालत होने से अशुद्ध हो और जो स्त्री श्रुतमती हो और क्या पुरुष क्या स्त्री जिस किसी के धातुरोग हो और जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे इन सभी की यही व्यवस्था है ॥
- (प्रार्थश्चित्त के दिन का आचार)

## १६. जब हारून के दो पुत्र यहोवा के साम्हने समीप जाकर मर गये

- उस के पीछे यहोवा ने मूसा से बात की । और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि सन्दूक के ऊपर के प्रार्थश्चित्तवाले ढकने के आगे बीचवाले पर्दे की आड़ में के पवित्रस्थान में हर एक समय तो प्रवेश न करना नहीं तो मर जाएगा क्योंकि मैं प्रार्थश्चित्तवाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा । और जब हारून पवित्रस्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से करे अर्थात् पापबलि के लिये एक बछड़े को और होमबलि के लिये एक मेढे को लेकर आए । वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जाँघिया पहिने और सनी के कपड़े की पेट्टी और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बाँधे हुए प्रवेश करे ये जो पवित्र वस्त्र हैं सो वह जल से स्नान करके इन्हें पहिनकर आए । फिर वह इस्राएलियों की मण्डली के पास से पापबलि के लिये दो बकरे और होमबलि के लिये एक मेढा ले । और हारून उस पापबलि के बछड़े को जो उसी के लिये दोगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिये प्रार्थश्चित्त

- करे । और वह दोनों बकरों को लेकर मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के साम्हने खड़ा करे । और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठी डाले एक चिट्ठी तो यहोवा के लिये और एक अजाजेल के लिये डाली जाए । और जिस बकरे पर यहोवा के लिये चिट्ठा निकले उस को तो हारून समीप ले आ पापबलि करके चढ़ाए । पर जिस बकरे पर अजाजेल के लिये चिट्ठी निकले वह यहोवा के साम्हने जीता खड़ा किया जाए कि उस से प्रार्थश्चित्त किया जाए और वह अजाजेल के लिये जंगल में छोड़ा जाए । और हारून उस पापबलि के बछड़े को जो उसी के लिये होगा समीप ले आए और उस को बलि करके अपने और अपने घराने के लिये प्रार्थश्चित्त करे । और जो वेदी यहोवा के सन्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्टियों को फूटे हुए सुगन्धित धूप से भरे वह बीचवाले पर्दे के भीतर ले आकर यहोवा के सन्मुख आगे पर धूप दे कि धूप का धूँआं सान्नीपत्र के ऊपर के प्रार्थश्चित्त के ढकने पर छा जाए नहीं तो वह मर जाएगा । तब वह बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रार्थश्चित्त के ढकने के ऊपर उंगली से छिड़के और फिर उस लोहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के साम्हने भी सात बार छिड़क दे । फिर वह उस पापबलि के बकरे को जो साधारण लोगों के लिये होगा बलि करके उस के लोहू को बीचवाले पर्दे की आड़ में ले आए और जैसे उस को बछड़े के लोहू से करना है वैसे ही वह बकरे के लोहू से भी करे अर्थात् उस को प्रार्थश्चित्त के ढकने पर और उस के साम्हने भी छिड़के । और वह इस्राएलियों की भान्ति भान्ति की अशुद्धता और अपराधों और उन के सब पापों के कारण पावत्रस्थान के लिये प्रार्थश्चित्त करे और मिलापवाला तम्बू जो उन के संग उन की भान्ति भान्ति का अशुद्धता के बीच रहता है उस के लिये भी वह वैसा ही करे । और जब हारून प्रार्थश्चित्त करने के लिये पवित्रस्थान में प्रवेश करे तब से जब लों वह अपने और अपने घराने और इस्राएल की सारी मण्डली के लिये प्रार्थश्चित्त करके बाहर न निकले तब लों और कोई मनुष्य मिलापवाले तम्बू में न रहे । फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के साम्हने है जाकर उस के लिये प्रार्थश्चित्त करे अर्थात् बछड़े के लोहू और बकरे के लोहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए और लोहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा

(१) मूल में बास किये रहता है ।

सात बार उस पर छिड़क कर उसे इस्राएलियों की भांति  
 २० भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे । और  
 जब वह पवित्रस्थान और मिलापवाले तम्बू और बेदी के  
 लिये प्रायश्चित्त कर चुके तब जीते हुए बकरे का समीप ले  
 २१ आए । और हाकून अपने दांनों हाथों को जीते हुए बकरे  
 पर टेककर इस्राएलियों के सब अधर्मों के कामों और उन  
 के सब अपराधों निदान उन के सारे पापों को अगीकार  
 करे और उन को बकरे के सिर पर उतारे फिर उस को  
 किसी ठहराये हुए मनुष्य के हाथ जङ्गल में भेज के छोड़ा  
 २२ दे । और वह बकरा अपने पर लदे हुए उन के सब  
 अधर्मों के कामों का किसी निगले देश में उठा ले जाए  
 २३ और वह मनुष्य बकरे का जङ्गल में छोड़ आए । तब  
 हाकून मिलापवाले तम्बू में आए और जो सनी के वस्त्र  
 पहने हुए वह पवित्रस्थान में प्रवेश करे उन्हें उतारके  
 २४ वहाँ रख दे । फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से  
 स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन बाहर जाकर अपने  
 होमबलि और साधारण लोगों के होमबलि को चढ़ाकर  
 २५ अपने और साधारण लोगों के लिये प्रायश्चित्त करे । और  
 २६ पापबलि का चरबा को वह बंदी पर जलाए । और जो  
 मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिये छोड़ आए वह अपने  
 वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और पीछे वाद  
 २७ झावनी में आने पाए । और पापबलि का बछड़ा और  
 पापबलि का बकरा भी जिन का लाहू पवित्रस्थान में  
 प्रायश्चित्त करने के लिये पहुंचाया जाए वे दांनों झावनी  
 से बाहर पहुंचाये जाएं और उन का खाल मांस और  
 २८ गोबर आग में जलाए जाएं । और जो उन को जलाए  
 वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और  
 पीछे झावनी में आने पाए ॥  
 २९ और तुम लोगों के लिये यह सदा की विधि ठहरे कि  
 सातवें महीने के दसवें दिन को तुम अपने अपने जीव  
 को दुःख देना और उस दिन चाहे तुम्हारे निज देश का  
 कोई ही चाहे तुम्हारे बीच रहनेहारा कोई परदेशी हो  
 ३० कोई किसी प्रकार का काम काज न करे । क्योंकि उस  
 दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिये तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित्त  
 किया जाएगा बरन तुम अपने सब पापों से यहोवा के  
 ३१ साम्हने शुद्ध ठहरोगे । वह तुम्हारे लिये परमाविश्राम का  
 दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुःख  
 ३२ देना यह सदा की विधि है । और अपने पिता के स्थान  
 पर याजक ठहरने के लिये जिस का अभिषेक और  
 संस्कार किया जाए वह भी प्रायश्चित्त किया कर अर्थात्  
 ३३ सनी के पवित्र वस्त्रों को पहिनकर पवित्रस्थान और  
 मिलापवाले तम्बू और बेदी के लिये प्रायश्चित्त करे और

याजकों के और मण्डली के सब लोगों के लिये भी  
 प्रायश्चित्त करे । और यह तुम्हारे लिये सदा की विधि ठहरे ३४  
 कि इस्राएलियों के लिये बरस दिन में एक बार तुम्हारे सारे  
 पापों का प्रायश्चित्त किया जाए । यहोवा को इस आज्ञा  
 के अनुसार जो उस ने मूसा को दी थी हाकून ने किया ॥  
 (बलिदान केवल पवित्र तम्बू के साम्हने करने की आज्ञा)

१७. फिर यहावा ने मूसा से कहा, हाकून २  
 और उस के पुत्रों से और सारे

इस्राएलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि,  
 इस्राएल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल वा भेड़ ३  
 के बच्चे वा बकरी को चाहे झावनी में चाहे झावनी से  
 बाहर घात करके मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा ४  
 के निवास के साम्हने यहोवा के लिये चढ़ाने के निमित्त  
 न ले जाए तो उस मनुष्य को लोहू बहाने का दोष  
 लगेगा और वह मनुष्य जो लोहू बहानेहारा ठहरेगा  
 सो वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए । इस ५  
 विधि का यह कारण है कि इस्राएली जो अपने बलि-  
 पशुओं को लुलें मैदान में बलि करते हैं वे उन्हें मिलाप-  
 वाले तम्बू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिये ले  
 जाकर उसी के लिये मलापवाले तम्बू के द्वार पर ६  
 और याजक लोहू का मिलापवाले तम्बू के द्वार पर  
 यहोवा की बेदी के ऊपर छिड़के और चरबी को उस के  
 लिये सुखदायक सुगन्ध करके जलाए । और वे जो ७  
 बकरों के पूजक आकर व्याभन्धन करते हैं वे फिर  
 अपने बलिपशुओं का उन के लिये बलि न करे । तुम्हारी  
 पीढ़ी पीढ़ी में यह सदा की विधि ठहरे ॥

सो तू उन से कह कि इस्राएल के घराने के लोग ८  
 में से वा उन के बीच रहनेहारे परदेशियों में से कोई  
 मनुष्य क्यों न हो जो मलापवाले तम्बू के द्वार पर ९  
 उस को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के लिये  
 चढ़ाने को न ले आए वह मनुष्य अपने लोगों में से  
 नाश किया जाए ॥

(लोहू का पवित्रता)

फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से वा उन के १०  
 बीच रहनेहारे परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो  
 जो किसी प्रकार का लोहू खाए मैं उस लाहू खानेहारे  
 के विमुख होकर उस को उस के लोगों के बीच से नाश  
 कर डालूंगा । क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता ११  
 है और उस को मैं न तुम लोगों को बेदी पर चढ़ाने के  
 लिये दिया है कि तुम्हारे प्राण के लिये प्रायश्चित्त  
 किया जाए क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से

(१) मूल में के पीछे ।

- १२ प्रायश्चित्त होता है । इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लोहू न खाए और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहे वह भी लोहू न खाए ॥
- १३ सो इस्राएलियों में से वा उन के बीच रहनेहारे परदेशियों में से कोई मनुष्य न्यों न हो जो बाहर करके खाने के योग्य पशु वा पक्षी को पकड़े वह उस के लोहू को उगलेकर धूलि से ढापे । क्योंकि सब प्राणियों का प्राण जो है उन का लोहू ही उन का प्राण ठहरा है इसी से मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लोहू को तुम न खाना क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उन का लोहू ही है उस को जो कोई खाए
- १५ वह नाश किया जाए । और देशी हो वा परदेशी हो जो किसी लोथ वा फाड़े हुए पशु का मांस खाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और मांस लो अशुद्ध रहे तब वह शुद्ध ठहरेगा । और यदि वह उन का न धोए और न स्नान करे तो उस को अपने अधर्म का गार उठाना पड़ेगा ॥

( भास्ति भास्ति के घिनौने कामों का निषेध )

१८. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ । जिस देश के कामों के अनुसार जिस में तुम रहते थे न करना और कनान देश के कामों के अनुसार जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना और न उन देशों की विधियों पर चलना । मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ । सो तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को मानना जो मनुष्य उन को माने वह उन के कारण जीता रहेगा मैं तो यहोवा हूँ । तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुम्बिन का हन उधाड़ने को उस के पास न जाए मैं तो यहोवा हूँ । अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उधाड़ना वह तो तुम्हारी माता है सो तुम उस का तन न उधाड़ना । अपनी सौतेली माता का भी तन न उधाड़ना वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है । अपनी बहिन चाहे स्त्री हो चाहे सौतेली हो चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर उस का तन न उधाड़ना । अपनी पोती वा अपनी नतिनी का तन न उधाड़ना । उन की देह तो मानो तुम्हारी ही है । तुम्हारी सौतेली बहिन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई वह तुम्हारी बहिन है इस कारण उस का तन न उधाड़ना । अपनी भूखी का तन न उधाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुम्बिन है । अपनी मौसी का तन न उधाड़ना क्योंकि

वह तुम्हारी माता की निकट कुटुम्बिन है । अपने चचा का तन न उधाड़ना अर्थात् उस की स्त्री के पास न जाना वह तो तुम्हारी चची है । अपनी बहू का तन न उधाड़ना वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है सो तुम उस का तन न उधाड़ना । अपनी मौजी का तन न उधाड़ना वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है । किसी स्त्री और उस की बेटी दोनों का तन न उधाड़ना और उस की पोती को वा उस की नतिनी को अपनी स्त्री करके उस का तन न उधाड़ना वे तो निकट कुटुम्बिन हैं सो ऐसा करना महापाप है । और अपनी स्त्री की बहिन को भी अपनी स्त्री करके उस की सौत न करना कि पहिली के जीते जी उस का तन भी उधाड़े । फिर जब लो कोई स्त्री अपने अशुद्ध के कारण अशुद्ध रहे तब ला उस के पास उस का तन उधाड़ने को न जाना । फिर अपने भाईबन्धु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना । और अपने सन्तान में से किसी को मालेक के लिये होम करके न चढ़ाना और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना मैं तो यहोवा हूँ । खाँगमन की रीति पुरुष गमन न करना वह तो घिनौना काम है । किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध न हो जाना और न कोई स्त्री पशु के साम्हने इस लिये खड़ी हो कि उस के सग कुकर्म करे यह तो उलटा बात है ॥

ऐसा ऐसा कोई काम करके अशुद्ध न हो जाना क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं । और उन का देश भी अशुद्ध हुआ इस कारण मैं उस पर उस के अधर्म का दण्ड देता हूँ और वह देश अपने निवासियों का उगल देता है । इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को मानना और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहनेहारा परदेशी तुम में से कोई ऐसा घिनौना काम न करे । क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों का उस देश के मनुष्य जो तुम से पाहले उस में रहते हैं वे करते आये हैं इस से वह देश अशुद्ध हो गया है । सो ऐसा न हो कि जिस रीति जो जाति तुम से पाहले उस देश में रहती है उस को वह उगल देता है उसी रीति जब तुम उस को अशुद्ध करो तो वह तुम को भी उगल दे । जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे वे सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किये जाएं । यह जो प्राणियों में से मानने को दी है उसे तुम मानना और जो घिनौनी रीतियाँ तुम से पाहले प्रचलित हैं उन में से किसी पर न चलना और न उन के कारण अशुद्ध हो जाना मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ ॥

( मांति मांति का आचार )

- २ १६. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मण्डली से कहो कि तुम पवित्र रहना क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पावन हूँ । तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विभ्रामदिनों का पालना मैं त तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ । तुम मूरतों की आर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएँ ढाल कर न बना लेना मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ । जब तुम यहोवा के लिये मेलबलि करो तब बलि ऐसा करना कि मैं तुम से प्रसन्न होऊँ । उस का मांस बलि करने के दिन और दूसरे दिन खाया जाए पर तीसरे दिन लों जो रह जाए वह भ्रम में जलाया जाए । और यदि उस में से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह धिनौना ठहरेगा और पहचान न किया जाएगा । और उस का खानेहारा जो यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराएगा इस से उस को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा ॥
- ९ फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोनों का बिलकुल तो न काटना और काटे हुए खेत की सिला बिनाई न करना । और अपनी दाख की बारी को निभाइके न बिन लेना और अपनी दाख की बारी के भड़े हुए अंगूरों को न बटोरना उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिये छोड़ देना मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ । तुम चोरी न करना और एक दूसरे से न कपट करना न झूठ बोलना । तुम मेरे नाम की झूठी किरिया खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना मैं तो यहोवा हूँ । एक दूसरे पर अंधे न करना और न एक दूसरे को लूट लेना और मजूर की मजुरी तैरे पास रात भर बिहान लों न रहने पाए । बाहरे को न कोसना और न अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना मैं तो यहोवा हूँ । न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पत्त करना न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा बिचार करना एक दूसरे का न्याय धर्म से करना । लुतरे बनके अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे के लोहू महाने की मनसा से खड़ा न होना मैं तो यहोवा हूँ । अपने मन में एक दूसरे से बैर न रखना उस को अवश्य डांटना नहीं तो उस के पाप का भार तुम्हें को उठाना पड़ेगा । पलटा न लेना और न अपने जातिभाइयों से बैर रखे रहना वरन एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना ॥

तो यहोवा हूँ । तुम मेरी विधियों को मानना । अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से जोड़ियाने न देना अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहिनना । फिर कोई स्त्री दासी हो और उस की मंगनी किसी पुरुष से हुई हो पर वह न तो दाम से न संतमेंव स्वाधीन की गई हो उस से यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दण्ड तो मिले पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वं मार न डाले जाएँ । पर वह पुरुष मिलापवाले तंभ के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोषबलि के लिये ले आए । और याजक उस के किये हुए पाप के कारण दोषबलि के मेढ़े के द्वारा उस के लिये यहोवा के साम्हने प्रार्थश्चत्त करे तब उस का किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा । फिर जब तुम कनान देश में पहुँच कर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उन के फल तीन बरस लों तुम्हारे लेखे मानो खतनारहित ठहरे रहें सो उन में से कुछ न खाया जाए । और चौथे बरस में उन के सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिये पावन ठहरे । तब पांचवें बरस में तुम उन के फल खाना इस लिये कि उन से तुम को बहुत फल मिले मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ । तुम लोहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना न शुभ अशुभ मूर्तों को मानना । अपने सिर में घेरा रख कर न मुड़ाना न अपने गाल के बालों को मुड़ा डालना । मुर्दों के कारण अपने शरीर को कुछ न चीरना न उस में छाप लगाना मैं तो यहोवा हूँ । अपनी बेटियों को वेश्या बना कर अपवित्र न करना ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए । मेरे विभ्रामदिनों को मानना और मेरे पवित्रस्थान का भय मानना मैं तो यहोवा हूँ । ओम्हाओ और भूत साधनावालों की आर न फिरना और ऐसा की खोज करके उन के कारण अशुद्ध न हो जाना मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ । पक्के बालवाले के साम्हने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदरमान करना और अपने परमेश्वर का भय मानना मैं तो यहोवा हूँ । और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उस को दुःख न देना । जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लेखे में देशों के समान हा बरन उस से अपने ही समान प्रेम रखना क्योंकि तुम मिस्र देश में परदेशी थे मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ । न्याय में परिमाण में तौल में नाप में कुटिलता न करना । सच्चा तराजू धर्म के बटखरे सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहें मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम के

३७ जिस देश से निकाल ले आया है । सो तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए पालन करो मैं तो यहीवा हूँ ॥

(प्राणदण्ड के शोष्य भांति भांति के पापों का वर्णन)

२

**२०. फिर** यहीवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों

- में से वा इस्राएलियों के बीच रहनेहारे परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो अपनी कोई सन्तान मालेक को बलि करे वह निश्चय मार डाला जाए साधारण लोग उस पर ३ पत्थरबाह करे । और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उस को उस के लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उस ने अपनी सन्तान मालेक को देकर मेरे पवित्रस्थान को अशुद्ध और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ४ ठहराया । और यदि किसी के अपनी सन्तान मालेक को बलि करने पर साधारण लोग उस के विषय आना- ५ खानी करे और उस को न मार डालें तो मैं आप उस मनुष्य और उस के घराने के विरुद्ध होकर उस को और जितने उस के पीछे होकर मालेक के साथ व्यभिचार करे उन सबों को भी उन के लोगों के बीच से नाश करूंगा । ६ फिर जो प्राणी आभाओं वा भूतसाधनावालों की ओर फिरके और उन के पीछे होकर व्यभिचारी बने मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उस को उस के लोगों के बीच में ७ से नाश करूंगा । तुम अपने को पवित्र करके पवित्र बने ८ रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हूँ । और मेरी विधियों को चौकसी करके मानना मैं तो तुम्हारा पवित्र ९ करनेहारा यहीवा हूँ । कोई क्यों न हो जो अपने पिता वा माता को कोसे वह निश्चय मार डाला जाए वह जो अपने पिता वा माता का कासनेहारा ठहरेगा इस से उस का १० खून उसी के सिर पर पड़ेगा । फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिस ने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो वह व्यभिचारी और वह ११ व्यभिचारन दोनों निश्चय मार डाले जाएं । और यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए वह जो अपने पिता ही का तन उधाड़नेहारा ठहरेगा सो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं उन का खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा । १२ और यदि कोई अपनी पत्नी के साथ सोए तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं क्योंकि वे उलटा काम करनेहारे १३ ठहरेगे और उन का खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा । और यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों जो धिनीना काम करनेहारे ठहरेगे इस से वे निश्चय मार डाले जाएं उन का खून उन्हीं के सिर पर १४ पड़ेगा । और यदि कोई किसी स्त्री और उस की माता

दोनों को रक्खे तो यह महापाप है सो वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों भाग में जलाये जाएं जिस से तुम्हारे बीच महापाप न हो । फिर यदि कोई पुरुष पशु १५ गामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएं । और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उस के १६ संग कुकर्म करे तो तू उस स्त्री और पशु दोनों को धात करना वे निश्चय मार डाले जाएं उन का खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा । और यदि कोई अपनी बहिन को चाहे १७ उस की सगी बहिन हो चाहे सौतेली अपनी स्त्री बनाकर उस का तन देखे और उस की बहिन भी उस का तन देखे तो यह निन्दित बात है सो वे दोनों अपने जाति- १८ भाइयों की आंखों के साम्हने नाश किये जाएं वह जो अपनी बहिन का तन उधाड़नेहारा ठहरेगा उसे अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा । फिर यदि कोई पुरुष किसी १९ ऋतुमती स्त्री के संग सोकर उस का तन उधाड़े तो वह पुरुष जो उस के रूधिर के सोते का उधाड़नेहारा ठहरेगा और वह स्त्री जो अपने रूधिर के सोते की उधारनेहारी २० ठहरेगी इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच से नाश किये जाएं । और अपनी मौसी वा पूंफा का तन न २१ उधाड़ना क्योंकि जो उसे उधारे वह अपनी निकट कुटुम्बन को नंगा करता है सो उन दोनों के अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा । और यदि कोई अपनी चाची के संग २२ सोए तो वह अपने चचा का तन उधाड़नेहारा ठहरेगा सो वे दोनों अपने पाप के भार को उठाके निर्वंश मर जाएं । और यदि कोई अपनी भौजी वा भयहू को अपनी २३ स्त्री बनाए तो इसे धिनीना काम जानना वह अपने भाई का तन उधाड़नेहारा ठहरेगा सो वे दोनों निर्वंश रहेंगे ॥

तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को २४ चौकसी करके मानना न हो कि जिस देश में मैं तुम्हें स्तिये जाता हूँ वह तुम को उगल दे । और जिस जाति २५ के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ उस की रीतियों पर न चलना क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किये इसी से मेरा जी उन से मिचला उठा है । और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उन की भूमि २६ के अधिकारी होगे और मैं वह देश जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हूँ जिस ने तुम को देश देश के लोगों से अलग किया है । इस कारण तुम शुद्ध २७ अशुद्ध पशुओं और शुद्ध अशुद्ध पक्षियों में भेद करना और कोई पशु वा पक्षी वा किसी प्रकार का भूमि पर रंगनेहारा जीवजन्तु क्यों न हो जिस को मैं ने तुम्हारे लिये अशुद्ध ठहराकर बरजा है उस से अपने आप को

- २६ धिनौना न करना । और तुम मेरे लिये पावित्र बने रहो क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ और मैं ने तुम को देश देश के लोगों से इस लिये अलग किया है कि तुम मेरे ही बने रहो ॥
- २७ यदि कोई पुरुष वा स्त्री भोभाई वा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए ऐसों पर पत्थरवाह किया जाए उन का खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा ॥

(याजकों के लिये विशेष विशेष विधियाँ)

**२९. फिर** यहोवा ने मूसा से कहा हारून

- के पुत्र जो याजक हैं उन से कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई मरे तो उस के कारण २ तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न करे । अपने निकट कुटुम्बिया अर्थात् अपनी माता वा पिता वा बेटे वा बेटि ३ वा भाई के लिये वा अपनी कुंवारी बहिन जिस का विवाह न हुआ हो जो उस की समीपिन है उन के लिये वह अपने को अशुद्ध कर सकता पर याजक जो अपने लोगों में ४ प्रधान है इस से वह अपने को ऐसा अशुद्ध न कर कि अपने को अपवित्र कर डाले । सो वे न तो अपने सिर मुँड़ाएँ न अपने गाल के बालों को और न अपना शरीर ५ चीरें । वे अपने परमेश्वर के लिये पावित्र रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराएँ क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उन के परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं इस कारण वे पावित्र रहें । वे वेश्या वा भ्रष्टा को ७ ब्याह न लें और न त्यागी हुई को ब्याह लें क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिये पावित्र होता है । सो ८ उस को पावित्र जान क्योंकि वह तेरे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है सो वह तेरे लेखे में पावित्र ठहरे क्योंकि मैं यहोवा जो तुम को पावित्र करता हूँ सो पावित्र हूँ । ९ और यदि किसी याजक की बेटि वेश्या होकर अपने को अपवित्र करे तो वह जो अपने पिता को अपवित्र ठहरे राखी सो वह आग में जलाई जाए ॥
- १० और जो अपने भाइयों में से महायाजक हो जिस के सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया और उस का संस्कार इस लिये हुआ हो कि वह पावित्र बखों को पहनने पाए वह न तो अपने सिर के बाल खिखराए और न ११ अपने बख फाड़े । और न वह किसी लोथ के पास जाए वरन अपने पिता वा माता के कारण भी अपने को १२ अशुद्ध न करे । और वह पावित्रस्थान से बाहर निकले भी नहीं न हो कि अपने परमेश्वर के पावित्रस्थान को अपवित्र ठहराएँ क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेलरूपी मुकुट धारण किये हुए है मैं तो यहोवा

(१) वा का तेल जो उस के न्यारे किये जाने का चिन्ह है उसे ।

हूँ । और वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे । जो विधवा १३, १४ वा त्यागी हुई वा भ्रष्ट वा वेश्या हो ऐसी किसी को वह न ब्याहे वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुंवारी कन्या को ब्याहे । और वह अपने वीर्य को अपने लोगों १५ में अपवित्र न करे क्योंकि मैं उस का पावित्र करनेहारा यहोवा हूँ ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि १६, १७ तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई दोष हो वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने को समीप न आए । कोई क्यों न हो जिस के दोष हो वह समीप न १८ आए चाहे वह अंधा हो चाहे लंगड़ा चाहे नकचपटा हो चाहे उस के कुछ अधिक अंग ही, वा उस का पांव वा १९ हाथ टूटा हो, वा वह कुबड़ा वा बौना हो वा उस की २० आंख में दोष हो वा उस मनुष्य के चाँई वा खुजली हो वा उस के अंड पिचके हों । हारून याजक के वंश में से २१ जिस किसी के कोई भी दोष हो वह यहाँवा के हव्य चढ़ाने को समीप न आए वह जो दोषयुक्त है इस से वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने को समीप न आए । वह अपने परमेश्वर के पावित्र और परमपावित्र दोनों २२ प्रकार के भोजन को खाए तो खाए, पर उस के जो दोष २३ है इस से वह न तो बीचवाले पर्दे के पास भीतर आये और न वेदी के समीप न हो कि वह मेरे पावित्रस्थानों को अपवित्र करे मैं तो उन का पावित्र करनेहारा यहोवा हूँ । सो मूसा ने हारून और उस के पुत्रों को बरन सारे २४ इस्राएलियों को यह बातें कह मुनाई ॥

**२२. फिर** यहोवा ने मूसा से कहा, हारून २

और उस के पुत्रों से कह कि इस्राएलियों की पावित्र की हुई वस्तुओं से जो वे मरे लिये पावित्र करें न्यारे रहो न हो कि मेरा पावित्र नाम तुम्हारे द्वारा अपवित्र ठहरे मैं तो यहोवा हूँ । और उन ३ से कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपना अशुद्धता रहते हुए उन पावित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिये पावित्र करें वह प्राणी मरे साम्हने से नाश किया जाए मैं तो यहोवा हूँ । हारून के वंश में से कोई क्यों न हो ४ जो कोई हो वा उस के प्रमेह हो वह मनुष्य जब लौ अशुद्ध न हो जाए तब लौ पावित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए । और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो वा जिस का वीर्य स्वलित हुआ हो ऐसे मनुष्य को जो कोई छूए, और जो कोई किसी ऐसे रंगनेहारे ५ जन्तु को छूए जिस से लोग अशुद्ध होते हैं वा किसी ऐसे मनुष्य को छूए जिस में किसी प्रकार की अशुद्धता

- ६ हो, जो प्राणी इन में से किसी को छूए वह सांभ लों अशुद्ध ठहरा रहे और तब लों पावित्र वस्तुओं में से न  
 ७ खाए जब लों वह जल से स्नान न करे । तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और उस के पीछे पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा क्योंकि उस का भोजन वही  
 ८ है । जो जन्तु आप से मरा वा पशु से फाड़ा गया हो उस के खाने से वह अपने को अशुद्ध न करे मैं तो  
 ९ यहोवा हूँ । तो याजक लोग मेरी सीपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें न हो कि वे उन को अपवित्र करके पाप का भार उठाएँ और इस कारण मर जाएँ मैं तो उन का पावित्र करनेहारा यहोवा हूँ । पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाए बरन चाहे वह याजक का पाहुन व मजूर  
 ११ हो तो भी वह उसे न खाए । पर यदि याजक किसी प्राणी को रूपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उस में से खाए और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हों वे भी उस के  
 १२ भोजन में से खाएँ । और यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से न खाए । पर यदि याजक की बेटी विधवा वा त्यागी हुई हो और उस के सन्तान न हो और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो तो वह अपने पिता के भोजन में से  
 १४ खाए पर पराये कुल का कोई उस में से न खाए । और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खाए तो वह उस का पांचवा भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे ।  
 १५ और वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिये चढ़ाए अपवित्र न करें । वे उन को अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उन से अपराध का दोष न उठाएँ मैं उन का पावित्र करनेहारा यहोवा हूँ ॥  
 १७, १८ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उस के पुत्रों से और सारे इस्राएलियों से समझाकर कह कि इस्राएल के घराने या इस्राएलियों में रहनेहारे परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मजत वा स्वेच्छावलि करके यहोवा को कोई होमबाल चढ़ाए, तो तुम्हारे ग्रहणयोग्य ठहरनेके लिये बैलों वा भेड़ों वा बकरियों में से  
 २० निर्दोष नर चढ़ाया जाए । जिस में कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहणयोग्य न  
 २१ ठहरेगा । और कोई हो जो बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के वा स्वेच्छावलि के लिये यहोवा को मल बाल चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिये अवश्य है कि वह निर्दोष हो उस में कोई भी दोष न हो । जो अघा वा अग का टटा वा लूला हो वा उस में रसौली वा खौरा वा खजुली हो ऐसी को यहोवा के लिये

न चढ़ाना उन को वेदी पर यहोवा का हव्य करके न चढ़ाना । जिस किसी बैल वा भेड़े वा बकरे का कोई अग अधिक वा कम हो उस को स्वेच्छावलि करके चढ़ाना तो चढ़ाना पर मजत पूरी करने के लिये वह ग्रहण न होगा । जिस के अंड दबे वा कुचले वा टूटे वा कट गये हों उस को यहोवा के लिये न चढ़ाना अपने देश में ऐसा काम न करना । फिर इन में से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाना क्योंकि उन में उन का बिगाड़ होगा उन में दोष होगा इस लिये वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा वा भेड़ वा बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह सात दिन लों अपनी मा के साथ रहे फिर आठवें दिन से आगे के वह यहोवा के हव्यवाले चढ़ावे के लिये ग्रहणयोग्य ठहरेगा । चाहे गाय चाहे भेड़ी वा बकरी हो उस को और उस के बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना । और जब तुम यहोवा के लिये धन्यवाद का मेलबलि करो तो उसे इस प्रकार से करना कि ग्रहणयोग्य ठहरे । वह उसी दिन खाया जाए उस में से कुछ भी बिहान लों रहने न पाए मैं तो यहोवा हूँ । और तुम मेरी आज्ञाओं को चौकसी करके मानना मैं तो यहोवा हूँ । और मेरे पावित्र नाम को अपवित्र न ठहराना । क्योंकि मैं अपने को इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पावित्र ठहराऊंगा मैं तो तुम्हारा पावित्र करनेहारा यहोवा हूँ, जो तुम को इस देश से तुम्हारा परमेश्वर होने के लिये निकाल ले आया है मैं तो यहोवा हूँ ॥

(बरस भर के नियत तिहवारों की विधिवा)

२३. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के नियत समय जिन में तुम को पावित्र सभाओं का प्रचार करना होगा मेरे वे नियत समय ये हैं । छः दिन तो कामकाज किया जाए पर सातवां दिन परमाविश्राम का और पावित्र सभा का दिन है उस में किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्रामादन ठहरे ॥  
 फिर यहोवा के नियत समय जिन में से एक एक के ठहराये हुए समय में तुम्हें पावित्र सभा का प्रचार करना होगा सो ये हैं । पहिले महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के समय यहोवा का फसह हुआ करे । और उसी महीने के पंद्रहवें दिन को यहोवा के लिये अस्वमीरी रोटी का पर्व हुआ करे उस में तुम सात दिन लों अस्वमीरी रोटी खाया करना । उन में से पहिले दिन तुम्हारी पावित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न



८ करना । और सातों दिन तुम यहोवा के हव्य चढ़ाया करना और सातवें दिन पवित्र सभा हो उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना ॥

९, १० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में पहुँचो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उस में के खेत काटो तब अपने अपने पक्के खेत की पहिली उपज का पूला याजक के पास ले आया ११ करना । और वह उस पूले को यहोवा के साम्हने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त प्रहण किया जाए वह उसे विश्राम- १२ दिन के दूसरे दिन हिलाए । और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन बरस दिन का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिये होमबलि करके चढ़ाना । और उस १३ के साथ का अन्नबाल एपा के दो दसवें अंश तेल में सने हुए मैदे का हो वह सुखदायक सुगंध के लिये यहोवा का हव्य हो और उस के साथ का अर्घहीन भर १४ की चौथाई दाखमधु हो । और जब लों तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ उस दिन लों नये खेत में से न तो रोटी खाना न भूना हुआ अन्न न हरी बालें यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरों में सदा की विधि ठहरे ॥

१५ फिर उस विश्रामादन के दूसरे दिन से अर्थात् जिस दिन तुम हिलाई जानेहारी भेट के पूले को लगे उस १६ दिन से पुरे सात विश्रामादन गिन लेना । सातवें विश्राम- दिन के दूसरे दिन ला पचास दिन गिनना और पचासवें १७ दिन यहोवा के लिये नया अन्नबाल चढ़ाना । तुम अपने घरों में से एपा के दो दसवें अंश मैदे की दो रोटियां हिलाने की भेट के लिये ले आना वे ग्लमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिये पहिली उपज ठहरें । १८ और उस रोटी के संग बरस दिन के सात निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बलूड़ा और दो भेड़ें चढ़ाना वे अपने अपने साथ के अन्नबाल और अर्घ समेत यहोवा के लिये होमबलि करके चढ़ाए जाएं अर्थात् व यहोवा के १९ लिये सुखदायक सुगन्ध देनेहारा हव्य ठहरें । फिर पाप- बलि के लिये एक बकरा और मेलबलि के लिये बरस दिन के दो भेड़ के बच्चे चढ़ाना । तब याजक उन को पहिली उपज की रोटी समेत यहोवा के साम्हने हिलाने की भेट करके हिलाए और इन रोटियों के संग वे दो भेड़ के बच्चे भी हिलाये जाएं वे यहोवा के लिये पवित्र और याजक २० का भाग ठहरें । और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई काम न करना यह तुम्हारे सारे घरों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे ॥

जब तुम अपने देश में के खेत काटो तब अपने खेत २२ के कोनों को पूरी रीति से न काटना और खेत का सिखा न बिन लेना उसे दीनहीन और परदेशी के लिये छोड़ देना मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से २३, २४ कह कि सातवें महीने के पहिले दिन को तुम्हारे लिये परमाविश्राम हो उस में स्मरण दिलाने को नरसिगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा हो । उस दिन तुम परिश्रम का २५ कोई काम न करना और यहोवा के लिये एक हव्य चढ़ाना ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी सातवें महीने २६, २७ का दसवां दिन प्रार्थश्चित्त का दिन माना जाए वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन ठहरे और उस में तुम अपने अपने जीव को दुःख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना । उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न २८ करना क्योंकि वह प्रार्थश्चित्त का दिन ठहरा है जिस में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के साम्हने तुम्हारे लिये प्रार्थश्चित्त किया जाएगा । सो जो कोई प्राणी उस दिन २९ दुःख न सहे वह अपने लोगों में से नाश किया जाए । और कोई प्राणी हा जो उस दिन किसी प्रकार का काम- ३० काज करे उस प्राणी को मैं उस के लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा । तुम किसी प्रकार का कामकाज न ३१ करना यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरों में सदा की विधि ठहरे । वह दिन तुम्हारे लिये परमाविश्राम का ३२ हो सो उस में तुम अपने अपने जीव को दुःख देना और उस महीने के नवें दिन की सांभ में लेकर दूसरी सांभ लों अपना विश्रामादन माना करना ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ३३, ३४ कह कि उसी सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन से सात दिन ला यहोवा के लिये भोपाड़ियों का पर्व रहा करे । पहिले दिन पवित्र सभा हो उस में परिश्रम का कोई ३५ काम न करना । सातों दिन यहोवा के लिये हव्य चढ़ाया ३६ करना फिर आठवें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिये हव्य चढ़ाना वह महासभा का दिन हो और उस में परिश्रम का कोई काम न करना ॥

यहोवा के नियत समय ये ही हैं इन में तुम हव्य ३७ अर्थात् होमबलि अन्नबलि मेलबलि और अर्घ एक एक के अपने अपने दिन में यहोवा को चढ़ाने के लिये पवित्र सभा का प्रचार करना । इन सभों से अधिक यहोवा ३८ के विश्रामादनो को मानना और अपनी भेटों और सब मन्त्रों और स्वेच्छाबलियों को जो यहोवा के लिये करोगी चढ़ाया करना ॥

फिर सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन को जब तुम देश ३९

का उपज को इकट्ठा कर चुको तब सात दिन लो यहोवा का पर्व मानना पहिले दिन परमविभ्राम हो और आठवें ४० दिन परमाविभ्राम हो। और पहिले दिन तुम अच्छे, अच्छे वृत्तों की उपज और खजूर के पत्त और घने वृत्तों की डालियाँ और नालों में के मजनु को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने सात दिन आनन्द करना। और बरस बरस सात दिन लो यहोवा के लिये यह पर्व माना करना यह तुम्हारी पीढी पीढी में सदा की विधि ठहरे कि ४२ सातवें महीने में यह पर्व माना जाए। सात दिन लो तुम भोपड़ियों में रहा करना अर्थात् जितने जन्म के इस्राएली हैं वे सब के सब भोपड़ियों में रहें, इस लिये कि तुम्हारी पीढी पीढी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाले लाता था तब उस ने उन को भोपड़ियों में टिकाया था मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के नियत समय कह सुनाये ॥

(पवित्र दीपकों और रोटियाँ की विधि)

२ २४. फिर यहोवा ने मूसा से कहा। इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मर पास उजियाला देने के लिये जलपाई का कूट के निकाला हुआ निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य बरा करें<sup>१</sup>। हासून उस को मलापवाले तंबू में साक्षी-पत्र के बीचवाले पर्दे से बाहर यहोवा के साम्हने नित्य साक से भोर लो सजा रखवे यह तुम्हारी पीढी पीढी के लिये सदा की विधि ठहर। वह दीपकों के स्वच्छ दीपक पर यहोवा के साम्हने नित्य सजाया करे ॥

५ और तू मैदा लेकर बारह रोटियाँ पकवाना एक एक रोटो में एपा के दो दसवां अंश मैदा हो। तब उन की दो पांति<sup>२</sup> करके एक एक पांति में<sup>३</sup> छः छः रोटियाँ स्वच्छ मैज पर यहोवा के साम्हने धरना। और एक पांति पर<sup>४</sup> चोखा लावान रखना कि वह रोटो पर स्मरण दिखानेहारी वस्तु और यहोवा के लिये हव्य हो। एक एक विभ्रामादिन का वह उसे नित्य यहोवा के सन्मुख कम से रक्खा करे यह सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की और से हुआ करे। और वह हासून और उस के पुत्रों की ठहरे और वे उस का किसी पवित्र स्थान में खाएं क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हासून के लिये परमपवित्र वस्तु ठहरी है ॥

(१) मूल में चढ़ाया जाया करे।

(२) वा के दो ढेर।

(३) वा एक एक ढेर में।

(४) वा एक एक ढेर पर।

(यहोवा को निन्दा आदि प्राणदण्ड योग्य पात्रों की व्यवस्था)

उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा जिस का १० पिता किसी पुरुष या इस्राएलियों के बीच चला गया और वह इस्राएलिन का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे। और वह ११ इस्राएलिन का बेटा यहोवा के नाम की निन्दा करके कोसने लगा यह सुनके लोग उस को मूसा के पास ले गये। उस की माता का नाम शलोमीत था जो दान के गोत्र के दिमी की बेटी थी। उन्होंने उस को हवालामत में बन्द १२ किया इस लिये कि यहोवा के आज्ञा देने से इस बात का विचार किया जाए ॥

तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस १३, १४ कोसनेहारे को छावनी से बाहर लिवा ले जाओ और जितना ने वह निन्दा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उस के सिर पर टेके तब सारी मण्डली के लोग उस पर पत्थरवाह करे। और तू इस्राएलियों से कह कि कोई न्यो १५ न हो जो अपने परमेश्वर को कोसे उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहावा के नाम का निन्दा करने- १६ हारा निश्चय मार डाला जाए सारी मण्डली के लोग निश्चय उस पर पत्थरवाह करे चाहे देशी हो चाहे परदेशी यदि कोई उस नाम का निन्दा करे तो वह मार डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण १७ से मारे वह निश्चय मार डाला जाए। और जो कोई १८ कि<sup>१</sup> धरैले पशु को प्राण से मारे वह उसे मर दे अर्थात् प्राणी की सन्ती प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे १९ को चोट पहुंचाए<sup>२</sup> तो जैसा उस ने किया हो वैसा ही उस से किया जाए। अर्थात् अंग भंग करने की सन्ती अंग भंग २० किया जाए आंख की सन्ती आंख दांत की सन्ती दांत जैसी चोट जिस ने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उस को भी पहुंचाई जाए। और पशु का मार डालनेहारा उस २१ को मर दे पर मनुष्य का मार डालनेहारा मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो जैसा देशी के लिये वैसा २२ ही परदेशी के लिये भी हो मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यही समझाया तब २३ उन्होंने ने उस कोसनेहारे को छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पत्थरवाह किया और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

(सातवें बरस और पचासवें बरस के विभ्राम कालों की विधि)

२५. फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह २

(५) मूल में यदि कोई अपने भाई बन्धु में दोष दे।

- कि जब तुम उस देश में पहुँचो जो मैं तुम्हें देता हूँ तब  
 ३ भूमि को यहोवा के लिये विश्राम मिला करे । छः बरस  
 तो अपना अपना खेत बोया करना और छहों बरस  
 अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांटकर देश की उपज  
 ४ इकट्ठी किया करना । पर सातवें बरस भूमि को यहोवा के  
 लिये परमविश्रामकाल मिला करे उस में न तो अपना  
 ५ खेत बोना न अपनी दाख की बारी छांटना । जो कुछ  
 काटे हुये खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना और  
 अपनी बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना  
 क्योंकि वह भूमि के लिये परमविश्राम का बरस होगा ।  
 ६ और भूमि के विश्रामकाल ही की उपज से तुम्हारा और  
 तुम्हारे दास दासी का और तुम्हारे साथ रहनेहारे मजूरों  
 ७ और परदेशियों का भी भोजन मिलेगा । और तुम्हारे  
 पशुओं का और देश में जितने जीवजन्तु हों उन का भी  
 भोजन भूमि की सब उपज से होगा ॥  
 ८ और सात विश्रामवर्ष अर्थात् सातगुना सात बरस  
 गिन लेना सातों विश्रामवर्षों का यह समय उंचास बरस  
 ९ होगा । तब सातवें महीने के दसवें दिन को अर्थात्  
 प्रायश्चित्त के दिन जयजयकार के महाशब्द का नरसिंगा  
 १० अपने सारे देश में सब कहीं फकवाना । और उस पचा-  
 सवें बरस को पवित्र करके मानना और देश के सारे  
 निवासियों के लिये छुटकार का प्रचार करना वह बरस  
 तुम्हारे यहाँ जुबली<sup>१</sup> कहलाए उस में तुम अपनी अपनी  
 निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे ।  
 ११ तुम्हारे यहाँ वह पचासवाँ बरस जुबली का बरस कहलाए  
 उस में तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी  
 न काटना और न बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों  
 १२ को तोड़ना । क्योंकि वह जो जुबली का बरस होगा वह  
 तुम्हारे लेखे पवित्र ठहरे तुम उस की उपज खेत ही में से  
 १३ ले लेके खाना । इस जुबली के बरस में तुम अपनी अपनी  
 १४ निज भूमि को लौटने पाओगे । और यदि तुम अपने  
 भाईबन्धु के हाथ कुछ बेचो वा अपने भाईबन्धु से कुछ  
 मोल लो तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना ।  
 १५ जुबली<sup>१</sup> के पीछे जितने बरस बीते हों उन की गिनती  
 के अनुसार दाम ठहराके एक दूसरे से मोल लेना और  
 बाकी बरसों की उपज के अनुसार वह तैरे हाथ बेचे ।  
 १६ जितने बरस और रहें उतना ही दाम बढ़ाना और जितने  
 बरस कम रहें उतना ही दाम घटाना क्योंकि बरसों की  
 १७ उपज जितनी हो उतनी ही वह तैरे हाथ बेचेगा । और  
 तुम अपने अपने भाईबन्धु पर अंधेर न करना अपने

परमेश्वर का भय मानना मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा  
 हूँ । सो तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों १८  
 पर चौकसी करके चलना क्योंकि ऐसा करने से तुम उस  
 देश में निडर बसे रहोगे । और भूमि अपनी उपज उप- १९  
 जाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस  
 देश में निडर बसे रहोगे । और यदि तुम कहो कि सातवें २०  
 बरस में हम क्या खाएंगे न तो हम बोएंगे न अपने खेत  
 का उपज इकट्ठी करेंगे, तो जानो कि मैं तुम को छठवें २१  
 बरस में ऐसी आशय दूंगा<sup>२</sup> कि भूमि की उपज तीन बरस  
 लों काम आएगी । सो तुम आठवें बरस में बोओगे और २२  
 पुरानी उपज में से खाते रहोगे बरन नवें बरस की उपज  
 जब लों न मिले तब लों तुम पुरानी उपज में से खाते  
 रहोगे । भूमि सदा के लिये तो बेची न जाए क्योंकि भूमि २३  
 मरी है और उस में तुम परदेशी और उपरी होगे । सो २४  
 तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छूट जाने देना ॥

यदि तेरा कोई भाईबन्धु कंगाल होकर अपनी निज २५  
 भूमि में से कुछ बेच डाले तो उस के कुटुम्बियों में से  
 जो सब से निकट हो वह आकर अपने भाईबन्धु के बेचे  
 हुए भाग को छुड़ा ले । और यदि किसी मनुष्य के २६  
 लिये कोई छुड़ानेहारा न हो और इतना कमाए कि  
 आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उस के २७  
 बिकने के समय में बरसों की गिनती करके बाकी बरसों  
 की उपज का दाम उस का जिस ने उसे मोल लिया हो  
 फेर दे तब वह अपनी निज भूमि को फिर पाए । पर यदि २८  
 उस के इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर ले तो  
 उस की बेची हुई भूमि जुबली<sup>३</sup> के बरस लों मोल लेने-  
 हारे के हाथ में रहे और जुबली<sup>३</sup> के बरस में छूट जाए  
 तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि को फिर पाए ॥

फिर यदि कोई मनुष्य शहरपनाहवाले नगर में २९  
 बसने का घर बेचे तो वह बेचने के पीछे बरस दिन लों  
 उसे छुड़ा सकेगा अर्थात् पूरे बरस लों तो उस मनुष्य  
 को छुड़ाने का अधिकार रहेगा । पर यदि वह बरस दिन ३०  
 के पूरे होने लों न छुड़ाया जाए तो वह घर जो शहर-  
 पनाहवाले नगर में हो मोल लेनेहारे का बना रहे और  
 पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का रहे और जुबली<sup>३</sup> के  
 बरस में भी न छूटे । पर बिना शहरपनाह के गांवों के ३१  
 घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएँ सो उन का  
 छुड़ाना हो सकेगा और वे जुबली<sup>३</sup> के बरस में छूट  
 जाएँ । और लैवीयों के निज भाग के नगरों के जो घर ३२

(१) अर्थात् नरसिंगे का शब्द ।

(२) मूल में अपनी आशय को आशा दूंगा ।

(३) अर्थात् महाशब्दवाले नरसिंगे का शब्द ।

- ३३ हों उन को लेवीय जब चाहें तब छुड़ाए । और यदि कोई लेवीय अपना भाग न छुड़ाए तो वह बेचा हुआ घर जो उस के भाग के नगर में हो जुबली<sup>१</sup> के बरस में कूट जाए क्योंकि इस्राएलियों के बीच लेवीयों का भाग
- ३४ उन के नगरों के घर ही ठहरे हैं । और उन के नगरों की चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए क्योंकि वह उन का सदा का भाग होगा ॥
- ३५ फिर यदि तेरा कोई भाईबन्धु कंगाल हो जाए और उस का हाथ तेरे साम्हने दब जाए तो उस को संभालना वह परदेशी वा उपरी की नाई तेरे संग जीता रहे ।
- ३६ उस से ब्याज वा बढ़ती न लेना अपने परमेश्वर का भय मानना जिस से तेरा ऐसा भाईबन्धु तेरे संग जीता रहे । उस को ब्याज पर रूपया न देना और न उस को
- ३७ भोजनवस्तु बढ़ती के लालच से देना । मैं तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हूँ जो तुम्हें कनान् देश देने और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुम को मिस्र देश से निकाल लाया है ॥
- ३८ फिर यदि तेरा कोई भाईबन्धु तर साम्हने कंगाल हो कर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उस से दास की सी सेवा न कराना । वह तेरे संग मजूर वा उपरी की नाई रहे और जुबली<sup>१</sup> के बरस लों तेरे संग रह कर सेवा
- ४१ करता रहे । तब वह बालबच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए । क्योंकि वे मेरे ही दास हैं जिन को मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ सो वे दास की रीति न
- ४२ बेचे जाएं । उस पर कठोरता से अधिकार न जताना अपने परमेश्वर का भय मानना । तेरे जो दास दासियां हों सो तुम्हारी चारों ओर की जातियों में से हों और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना । और जो उपरी लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे उन में से और उन के घरानों में से भी जो तुम्हारे पास पास हों जिन्हें वे तुम्हारे देश में जन्माएँ तुम दास दासी मोल लों तो
- ४६ लो कि वे तुम्हारा भाग ठहर । और तुम अपने पुत्रों का भी जो तुम्हारे पीछे होंगे उन के अधिकारी कर सकोगे और वे उन का भाग ठहरें उन में से तो सदा के दास ले सकोगे पर तुम्हारे भाईबन्धु जो इस्राएली हों उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना ॥
- ४७ फिर यदि तेरे साम्हने कोई परदेशी वा उपरी धनो हा जाए और उस के साम्हने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे साम्हने उस परदेशी वा उपरी वा

उस के वंश के हाथ बेच डाले, तो उस के बिकने के पीछे, ४८ वह फिर छुड़ाया जा सकता उस के भाइयों में से कोई उस को छुड़ा सकता है । वा उस का चचा वा चचेरा भाई ४९ बरन उस के कुल में का कोई भी निकट कुटुम्बी उस को छुड़ा सकता है वा यदि उस के इतनी पूंजी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ाए । वह मोल लेनेहारे के ५० साथ अपने बिकने के बरस से जुबली<sup>१</sup> के बरस लों लेखा करे और उस के बेचने का दाम बरसों की गिनती के अनुसार ठहरे अर्थात् वह दाम मजूर के दिनों के समान ठहराया जाए । यदि जुबली<sup>१</sup> के बहुत बरस रह जाएं तो ५१ जितने रूपयों से वह मोल लिया गया हो उन में से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने बरसों के अनुसार फेर दे । और यदि जुबली<sup>१</sup> के बरस के थोड़े बरस रहें तो भी वह ५२ अपने स्वामी के साथ लेखा करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही बरसों के अनुसार फेर दे । वह अपने स्वामी ५३ के संग बरस बरस के मजूर के समान रहे और उस का स्वामी उस पर तेरे साम्हने कठोरता से अधिकार न जताने पाए । और यदि वह ऐसी रीति किसी से न छुड़ाया जाए ५४ तो वह जुबली<sup>१</sup> के बरस में अपने बालबच्चों समेत कूट जाए । क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास हैं वे मिस्र देश से ५५ मेरे निकाले हुए दास हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हूँ ॥

(धर्म अधर्म के फल)

## २६. तुम मूर्त न बना लेना और न कोई

खुदी हुई मूर्ति वा लाट खड़ी कर लेना और न अपने देश में दण्डवत् करने के लिये नकाशीदार पत्थर स्थापन करना क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हूँ । मेरे विश्रामदिनों का पालन करना २ और मेरे पावनस्थान का भय मानना मैं तो यहीवा हूँ ॥

यदि तुम मेरी वाधियों पर चला और मेरी आशाओं ३ का चौकसी करके माना करो, तो मैं तुम्हारे लिये समय ४ समय पर मेह बरसाऊंगा और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे । तुम दाख तोड़ने के समय ला दावनी करते रहोगे और ५ बने के समय ला दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाओगे और अपने देश में निडर बसे रहोगे । और ६ मैं तुम्हारे देश में चैन दूंगा और जब तुम लोटोगे तब तुम्हारा कोई डरानेहारा न होगा और मैं उस देश में दुष्ट जन्तुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी । और तुम अपने शत्रुओं को खदेड़ोगे और ७ वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे । बरन तुम में से पांच ८

(१) अर्थात् महाशब्दवाले नरसिंह का शब्द ।

मनुष्य सौ को और सौ मनुष्य दस हजार को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे । और  
 १ मैं तुम्हारी और कृपादाष्ट करके तुम को फुलाऊँ फलाऊँगा  
 और बड़ाऊँगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरी  
 १० करूँगा । और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे  
 ११ और नये के रहते भी पुराने को निकालोगे । और मैं  
 तुम्हारे बीच अपना निवासस्थान ठहरा रखूँगा और  
 १२ मेरा जी तुम से घिन न करेगा । और मैं तुम्हारे बीच  
 चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा और  
 १३ तुम मेरी प्रजा ठहरोगे । मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर  
 यहोवा हूँ जो तुम को मिस्र देश से इस लिये निकाल  
 लाया है कि तुम मिस्रियों के दास न रहो और मैं ने  
 तुम्हारे जूए को तोड़के तुम को सीधा खड़ा कर चलाया है ॥  
 १४ और यदि तुम मेरी न सुनो और इन सब आज्ञाओं  
 १५ को न मानो, और मेरी विधियों को निकम्मा जानो और  
 तुम्हारा जी मेरे नियमों से विचल करे और तुम मेरी सब  
 १६ आज्ञाओं को न मानो बरन मेरी वाचा को तोड़ो, तो मैं  
 तुम से यह करूँगा अर्थात् मैं तुम को भभराऊँगा और  
 क्षीररोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा और इन के कारण  
 तुम्हारी आँखें धुन्धली और तुम्हारा मन अति उदास  
 होगा और तुम्हारा बीज बोनो व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे  
 १७ शत्रु उस की उपज खा लेंगे । फिर मैं तुम्हारे विरुद्ध  
 हूँगा और तुम अपने शत्रुओं से हारोगे और तुम्हारे बैरी  
 तुम्हारे ऊपर अधिकार जताएंगे बरन जब कोई तुम को  
 १८ खदेड़ता न हो तब भी तुम भागोगे । और यदि तुम इन  
 बातों पर भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण  
 १९ तुम्हें सातगुणी ताड़ना और भी दूँगा । और मैं तुम्हारे  
 बल का घमण्ड तोड़ूँगा और तुम्हारे लिये आकाश को  
 २० बना दूँगा । से तुम्हारा बल अकारण गंवाया जाएगा  
 क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और  
 २१ देश के वृक्ष अपने फल न फलेंगे । और यदि तुम मेरे  
 विरुद्ध चलते रहो और मेरी सुनना नकारो तो मैं तुम्हारे  
 पापों के अनुसार सातगुणा तुम को और भी मारूँगा ।  
 २२ और मैं तुम्हारे बीच बनेले पशु भेजूँगा जो तुम को  
 निर्बल करेगा और तुम्हारे धरैले पशुओं को नाश कर  
 दालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे जिस से तुम्हारी  
 २३ सड़क सूनी पड़ जाएगी । फिर यदि तुम इन बातों पर  
 भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते हो  
 २४ रहो, तो मैं आप तुम्हारे विरुद्ध चलूँगा और तुम्हारे पापों  
 २५ के कारण मैं आप ही तुम को सातगुणा मारूँगा । से  
 मैं तुम पर तलवार चलवाऊँगा जिस से वाचा तोड़ने

का पलटा लिया जाएगा और जब तुम अपने नगरों में  
 इकट्ठे होंगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊँगा और तुम  
 अपने शत्रुओं के बश में पड़ जाओगे । जब मैं तुम्हारे २६  
 लिये अन्न के आधार को दूर कर डालूँगा तब दस लियाँ  
 तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौलकर  
 बाँट दूँगी से तुम खाकर भी तृप्त न होगे ॥

फिर यदि तुम इस पर भी मेरी न सुनो बरन मेरे २७  
 विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं जलकर तुम्हारे विरुद्ध २८  
 चलूँगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुम को  
 सातगुणी ताड़ना दूँगा । और तुम को अपने बेटों और २९  
 बेटियों का मांस खाना पड़ेगा । और मैं तुम्हारे पूजा के ३०  
 ऊँचे स्थानों को ढा दूँगा और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं  
 तोड़ डालूँगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई  
 मूर्तों पर फेंक दूँगा और मेरा जी तुम से मिचला जाएगा ।  
 और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूँगा और तुम्हारे पवित्र ३१  
 स्थानों को सूना कर दूँगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध  
 ग्रहण न करूँगा । और मैं आप ही तुम्हारा देश सूना ३२  
 कर दूँगा और तुम्हारे शत्रु जो उस में बस जाएंगे से  
 उस के कारण चाकत होंगे । और मैं तुम को जाति ३३  
 जाति के बीच तितर बितर करूँगा और तुम्हारे पीछे  
 तलवार खींचकर चलाऊँगा और तुम्हारा देश सूना हागा  
 और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे । तब जितने दिन ३४  
 वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के  
 देश में रहोगे उतने दिन वह अपने विश्रामकालों को  
 भांगता रहेगा तब वह देश विश्राम पाएगा अर्थात् अपने  
 विश्रामकालों को भांगता रहेगा । बरन जितने दिन वह ३५  
 सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उस को विश्राम रहेगा अर्थात्  
 जो विश्राम उस को तुम्हारे वहाँ बसे रहने के समय तुम्हारे  
 विश्रामकालों में न मिलेगा वह उस को तब मिलेगा । और ३६  
 तुम में से जो बच रहेंगे उन के हृदय में मैं उन के  
 शत्रुओं के देशों में कदराई डालूँगा और वे पत्त के  
 खड़कने से भी भाग जाएंगे बरन वे ऐसे भागेंगे जैसे  
 कोई तलवार से भागे और किसी के बिना पीछा किये भा  
 वे गिर पड़ेंगे । और जब कोई पीछा करनेवाला न हो ३७  
 तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर  
 खाकर गिरते जाएंगे और तुम को अपने शत्रुओं के  
 साम्हने ठहरने की कुछ शक्ति न होगी । तब तुम जाति ३८  
 जाति के बीच पहुँचकर नाश हो जाओगे और तुम्हारे  
 शत्रुओं की भूमि तुम को खा जाएगी । और तुम में से ३९  
 जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देशों में अपने अधर्म  
 के कारण गल जाएंगे और अपने पुरखाओं के  
 अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं की नाई

- ४० गल जाएंगे। तब वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे अर्थात् उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे और यह भी मान लेंगे कि हम जो यहोवा के विरुद्ध चले, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध चलकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है यों उस समय उन का खेतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दण्ड को अंगीकार करेंगे। तब जो वाचा मैं ने याकूब के संग बांधी थी उस की मैं सुधि लूंगा और जो वाचा मैं ने इसहाक से और जो वाचा मैं ने इब्राहीम से बांधी थी उन की भी सुधि लूंगा और देश की भी मैं सुधि लूंगा। देश उन से रहित होकर सुना पड़ा रहेगा और उन के बिना सुना रहकर अपने विश्रामकालों को भोगता रहेगा और वे लोग अपने अधर्म के दण्ड को अंगीकार करेंगे इस कारण कि उन्होंने मेरे नियमों को निकम्मा ठहराया और उन के जी ने मेरी विधियों से धिन की थी। इस पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उन को ऐसा निकम्मा न ठहराऊंगा और न उन से ऐसी धिन करूंगा कि उन का अन्त कर डालूँ वा अपनी उस वाचा को तोड़ूँ जो मैं ने उन से बान्धी है क्योंकि मैं उन का परमेश्वर यहोवा हूँ। सो मैं उन के हित के लिये उन के उन पितरों से बान्धी हुई वाचा की सुधि लूंगा जिन्हें मैं मिस्र देश से जाति जाति के साम्हने निकाल लाया हूँ कि उन का परमेश्वर ठहरूँ मैं तो यहोवा हूँ ॥
- ४६ जो जो विधि और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इस्त्राएलियों के लिये सीनै पर्वत के पास मूसा के द्वारा ठहराई वे ये ही हैं ॥  
(विशेष संकल्प की विधि)
- २ २७. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्त्राएलियों से यह कह कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो एक तो संकल्प किये हुए प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के ठहरेंगे। अर्थात् यदि वह बीस बरस वा उस से अधिक और साठ बरस से कम अवस्था का पुरुष हो तो उस के लिये पवित्रस्थान के शेकेल के लेखे पचास शेकेल का रुपया ठहरे। और यदि वह स्त्री हो तो तीस शेकेल ठहरे। फिर उस की अवस्था पांच बरस वा उस से अधिक और बीस बरस से कम की हो तो लड़के के लिये तो बीस शेकेल और लड़की के लिये दस शेकेल ठहरे। और यदि उस की अवस्था एक महीने वा उस से अधिक और पांच बरस से कम की हो तो लड़के के लिये तो पांच और लड़की के लिये तीन शेकेल ठहरे। फिर यदि उस की अवस्था साठ बरस की वा उस से

अधिक हो तो यदि पुरुष हो तो उस के लिये पंद्रह शेकेल और स्त्री हो तो दस शेकेल ठहरे। पर यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वह याजक के साम्हने खड़ा किया जाए और याजक उस की पूजा ठहराए अर्थात् जितना संकल्प करनेहारे से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए ॥

फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं यदि ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए तो जो पशु कोई यहोवा का दे वह पवित्र ही ठहरे। वह उसे किसी प्रकार से न बदले न तो वह बुरे की सन्ती अच्छा न अच्छे की सन्ती बुरा दे और यदि वह उस पशु की सन्ती दूसरा पशु दे तो वह और उस का बदला दोनों पवित्र ठहरे। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिये चढ़ावा नहीं चढ़ाते ऐसों में से यदि वह हो तो वह उस को याजक के साम्हने खड़ा कर दे। तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार के उस का मोल ठहराए और जितना याजक ठहराए उस का मोल उतना ही ठहरे। और यदि संकल्प करनेहारा उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसे वह पांचवां भाग बढ़ाकर दे ॥

फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिये पवित्र ठहराकर संकल्प करे तो याजक उस के गुण अवगुण दोनों विचार के उस का मोल ठहराए और जितना याजक ठहराए उस का मोल उतना ही ठहरे। और यदि घर का पवित्र करनेहारा उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया याजक ने उस का मोल ठहराया हो उतना वह पांचवां भाग बढ़ाकर दे तब घर उसी का रहे ॥

फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिये पवित्र ठहराना चाहे तो उस का माल इस के अनुसार ठहरे कि उस में कितना बीज पड़ेगा जितनी भूमि में होमेर भर जो पड़े उतनी का मोल पचास शेकेल ठहरे। यदि वह अपना खेत जुबली के बरस ही में पवित्र ठहराए तो उस का दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे। और यदि वह अपना खेत जुबली के बरस के पीछे पवित्र ठहराए तो जितने बरस दूसरे जुबली के बरस के बाकी रहें उन्हीं के अनुसार याजक उस के लिये रुपय का लेखा करे तब जितना लेखे में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। और यदि खेत का पवित्र ठहरानेहारा उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसे वह पांचवां भाग बढ़ाकर दे तब खेत

(१) अर्थात् नरसिंहे का शब्द ।

- २० उसी का रहे । और यदि वह खेत को छुड़ाना न चाहे वा उस ने उस का दूसरे क हाथ बेचा हो तो खेत आगे के कभी २१ न छुड़ाया जाए । बरन जब वह खेत जुबली के बरस में छूटे तब पूरी रीति अर्पण किये हुए खेत की नाई यहोवा के लिये पवित्र ठहरे अर्थात् वह याजक का निज भूमि २२ हो जाए । फिर यदि कोई अपना एक मोल लिया हुआ खेत जो उस की निज भूमि के खेतों में का न हो यहोवा के लिये पवित्र ठहराए, तो याजक जुबली के बरस लों २३ का लेखा करके उस मनुष्य के लिये जितना ठहराए उतना २४ वह यहोवा के लिये पवित्र जानकर उसी दिन दे । और जुबली के बरस में वह खेत उसी के अधिकार में फिर आए जिस से वह मोल लिया गया हो अर्थात् जिस की २५ वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए । और जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उस का मोल पवित्रस्थान ही के शेकेल के लेखे से ठहरे शेकेल बीस गेरा का ठहरे ॥ २६ पर धरैले पशुओं का पहिलौठा जो यहोवा का पहिलौठा ठहरा है उस को तो कोई पवित्र न ठहराए चाहे वह बछड़ा हो चाहे भेड़ वा बकरी का बच्चा वह २७ यहोवा का है ही । पर यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उस का पवित्र ठहरानेद्वारा उस को याजक के ठहराये हुए मोल के अनुसार उस का पांचवां भाग और बढ़ाकर (१) अर्थात् नरसिंघे का शब्द ।

छुड़ा सकता है और यदि वह न छुड़ाया जाए तो याजक के ठहराये हुए मोल पर बेचा जाए ॥

पर अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिये अर्पण करे चाहे मनुष्य हो चाहे पशु चाहे उस का निज भूमि का खेत से ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु न तो बेची और न छुड़ाई जाए जो कुछ अर्पण किया जाए सो यहोवा के लिये परमपवित्र ठहरे । मनुष्यों में से जो कोई अर्पण किया जाए वह छुड़ाया न जाए निश्चय मार डाला जाए ॥

फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल वह यहोवा का है ही वह यहोवा के लिये पवित्र ठहरे । यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो पांचवां भाग बढ़ाकर उस को छुड़ाए । और गाय बैल और भेड़ बकरियां निदान जो जो पशु गिनने के लिये लाठी के तले निकल जानेद्वारे हैं उन का दशमांश अर्थात् दस दस पीछे एक एक पशु यहोवा के लिये पवित्र ठहरे । कोई उस के गुण अवगुण न विचारे और न उस को बदल ले और यदि कोई उस को बदल भी ले तो वह और उस का बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाया न जाए ॥

जो आशाएँ यहोवा ने इस्राएलियों के लिये सीने पर्वत के पास मूसा को दीं वे ये ही हैं ॥

## गिनती नाम पुस्तक ।

(इस्राएलियों की गिनती)

१. इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे बरस के दूसरे महीने के पहिले दिन को यहोवा ने सीने के जंगल में मिलापवाले तंबू में मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मण्डली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेके कर । जितने इस्राएलियों बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था के होने के कारण युद्ध करने के योग्य हों उन सभी को उन के दलों के अनुसार तु और हारून गिन ले । और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो । तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं

अर्थात् रूबेन गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीयूर । शिमोन गोत्र में से सुरीशदै का पुत्र शलूमीएल । यहूदा गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन । इस्राएल गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल । जबलून गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलीआब । यूसुफवंशियों में से ये हैं अर्थात् एप्रैम गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा और मनश्शे गोत्र में से पदासूर का पुत्र गम्लीएल । बिन्यामीन गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान । दान गोत्र में से अम्मीशदै का पुत्र अहीएजेर । आशेर गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगीएल । गाद गोत्र में से दूएल का पुत्र एख्यासाप । नसाती गोत्र में से एनान का पुत्र अहीरा । मण्डली में से जो पुरुष अपने

- अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाये गये थे वे ही हैं और ये इस्राएलियों के हजारों<sup>१</sup> में मुख्य पुरुष १७ थे । सो जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन को १८ लिये हुए, मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहिले दिन को सारी मण्डली इकट्ठी की तब इस्राएलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार बीस बरस वा उस से अधिक अवस्थावालों के नामों की गिनती कराके अपनी अपनी वंशावली लिखाई । १९ जो आज्ञा यहेवा ने मूसा को दी उसी के अनुसार उस ने सीनै के जंगल में उन को गिन लिया ॥
- २० इस्राएल का पहिलौठा जो रूबेन था उस के वंश के लोग अर्थात् अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार जितने पुरुष बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे २१ पथ अपने अपने नाम से गिने गये । और रूबेन गोत्र के गिने हुए लोग साढ़े छियालीस हजार ठहरे ॥
- २२ शिमोन के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने पुरुष बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने नाम से गिने गये । और शिमोन गोत्र के गिने हुए लोग उनसठ हजार तीन सौ ठहरे ॥
- २४ गाद के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये । और गाद गोत्र के गिने हुए लोग पैंतालीस हजार साढ़े छः सौ ठहरे ॥
- २६ यहूदा के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये । और यहूदा गोत्र के गिने हुए लोग चौहत्तर हजार छः सौ ठहरे ॥
- २८ हस्साकार के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये । २९ और हस्साकार गोत्र के गिने हुए लोग चौबन हजार चार सौ ठहरे ॥
- ३० जबूलून के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस

(१) वा कुलों ।

वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये । और जबूलून गोत्र के गिने हुए लोग सत्तावन हजार ३१ चार सौ ठहरे ॥

यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के लोग अर्थात् ३२ अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये । और एप्रैम गोत्र के गिने हुए लोग साढ़े ३३ चालीस हजार ठहरे ॥

मनश्शे के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों और ३४ अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये । और ३५ मनश्शे गोत्र के गिने हुए लोग बत्तीस हजार दो सौ ठहरे ॥

बिन्यामीन के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों ३६ और अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये । और बिन्यामीन गोत्र के गिने हुए लोग पैंतास ३७ हजार चार सौ ठहरे ॥

दान के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों और ३८ अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये । और ३९ दान गोत्र के गिने हुए लोग बासठ हजार सात सौ ठहरे ॥

आशेर के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों और ४० अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये । और आशेर ४१ गोत्र के गिने हुए लोग साढ़े एकतालीस हजार ठहरे ॥

नताली के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों और ४२ अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये । और ४३ नताली गोत्र के गिने हुए लोग तिरपन हजार चार सौ ठहरे ॥

मूसा और हारून और इस्राएल के बारहों प्रधान ४४ जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे उन सभों ने जिन्हें गिन लिया वे इतने ही ठहरे । सो जितने ४५ इस्राएली बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के



कारण इस्राएलियों में से युद्ध करने के योग्य होकर अपने ४६ पितरों के घरानों के अनुसार गिने गये, वे सब गिने हुए लोग मिलकर छः लाख तीन हजार साठे पांच सौ ठहरे ॥

४७ इन में लेवीय अपने पितरों के गात्र के अनुसार न ४८ गिने गये । क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, ४९ केवल लेवीय गात्र की गिनती इस्राएलियों के बीच न ५० लेना । पर लेवीयों को साक्षीपत्र के निवास पर और उस के सारे सामान पर निदान जो कुछ उस से सम्बन्ध रखता है उस पर अधिकारी ठहराना सारे सामान समेत निवास को वे ही उठाया करें और उस में सेवा टहल वे ही किया करें और अपने डेरे उस की चारों ओर वे ही खड़े किया ५१ करें । और जब जब निवास का कूच हो तब तब लेवीय उस को गिरा दें और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवीय उस को खड़ा करें और यदि कोई ५२ दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए । और इस्राएली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में ५३ और अपने अपने भंडे के पास खड़ा किया करें । पर लेवीय अपने डेरे साक्षीपत्र के निवास ही की चारों ओर खड़े किया करें न हो कि इस्राएलियों की मंडली पर क्रोध भड़के और लेवीय साक्षीपत्र के निवास की रक्षा किया करें । ये जो आज्ञापण यहोवा ने मूसा को दी इस्राएलियों ने उन के अनुसार किया ॥

(इस्राएलियों की छावनी का क्रम)

२ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएली मिलापवाले तंबू की चारों ओर और उस के साम्हने अपने अपने भंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के पास ३ डेरे खड़े करें । और जो पूरब दिशा जहां सूर्योदय होता है उस की ओर अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें वे यहूदा की छावनीवाले भंडे के लोग हों और उन का प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन हो । ४ और उन के दल के गिने हुए लोग चौहत्स हजार छः ५ सौ हैं । उन के पास जो डेरे खड़े किया करें वे इस्राएल के गोत्रवाले हों और उन का प्रधान सुअर का पुत्र ६ मतनेल हो । और उन के दल के गिने हुए लोग चौवन ७ हजार चार सौ हैं । इन के पास जबूलून के गोत्रवाले रहें ८ और उन का प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआब हो । और उन के दल के गिने हुए लोग सत्तावन हजार चार सौ ९ हैं । इस रीति यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गये वे सब मिलकर एक लाख छियासी हजार चार सौ हैं पहिले ये ही कूच किया करें ॥

दक्खन अलंग पर रुबेन की छावनीवाले भंडे १० के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उन का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसर हो । और उन के दल के ११ गिने हुए लोग साठे छियातीस हजार हैं । उन के पास १२ जो डेरे खड़े किया करें सो शिमोन के गोत्रवाले हों और उन का प्रधान सूरीशहै का पुत्र शलुमीएल हो । और १३ उन के दल के गिने हुए लोग उनसठ हजार तीन सौ हैं । फिर गाद के गोत्रवाले हों और उन का प्रधान रूपल १४ का पुत्र एल्यासाप हो । और उन के दल के गिने हुए १५ लोग पैंतालीस हजार साठे छः सौ हैं । रुबेन की छावनी १६ में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गये वे सब मिलकर डेढ़ लाख एक हजार साठे चार सौ हैं दूसरा कूच इन का हो ॥

उन के पीछे और सब छावनियों के बीचोंबीच लेवीयों १७ की छावनी समेत मिलापवाले तंबू का कूच हुआ करे जिस क्रम से वे डेरे खड़े करें उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने भंडे के पास होकर कूच किया करें ॥

पच्छिम अलंग पर एप्रैम का छावनीवाले भंडे के १८ लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उन का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीरामा हो । और उन के दल के १९ गिने हुए लोग साठे चालीस हजार हैं । उन के पास २० मनश्शे के गोत्रवाले हों और उन का प्रधान पदासर का पुत्र गम्तीएल हो । और उन के दल के गिने हुए लोग २१ बत्तीस हजार दो सौ हैं । फिर बिन्यामीन के गोत्रवाले २२ हों और उन का प्रधान गिदानी का पुत्र अयीदान हो । और उन के दल के गिने हुए लोग पैंतीस हजार चार २३ सौ हैं । एप्रैम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गये वे सब मिलकर एक लाख आठ २४ हजार एक सौ पुरुष हैं तीसरा कूच इनका हो ॥

उत्तर अलंग पर दान की छावनीवाले भंडे के लोग २५ अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उन का प्रधान अम्मीशहै का पुत्र अहीऐजेर हो । और उन के दल के २६ गिने हुए लोग बासठ हजार सात सौ हैं । उन के पास २७ जो डेरे खड़े करें वे आशेर के गोत्रवाले हों और उन का प्रधान आक्रान का पुत्र पगीएल हो । और उन के दल के २८ गिने हुए लोग साठे इकतालीस हजार हैं । फिर नप्ताली के गोत्रवाले हों और उन का प्रधान एनान का पुत्र अहीरा हो । और उन के दल के गिने हुए लोग तिरपन २९ हजार चार सौ हैं । दान की छावनी में जितने गिने गये ३० वे सब मिलकर डेढ़ लाख सात हजार छः सौ हैं ये अपने अपने भंडे के पास होकर सब से पीछे कूच किया करें ॥

२ इस्राएलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गये वे ये ही हैं और सब छावनियों के जितने लोग अपने अपने दलों के अनुसार गिने गये वे सब मिलाकर छः लाख तीन हजार साठे पांच सौ ठहरे ।  
 ३३ पर यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उस के अनुसार  
 ३४ लेवीय तो इस्राएलियों में गिने न गये । और जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी इस्राएली उस उस के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने अपने भंडे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे ॥

(पहिलीठों की सन्ती लेवीयों का यहोवा से ग्रहण किया जाना)

### ३. जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बातें की उस समय हारून

२ और मूसा की यह वंशावली थी । हारून के पुत्रों के नाम ये हैं नादाब जो उस का जेठ था और अबीहू एलाजार  
 ३ और ईतामार । हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उन का संस्कार याजक का काम करने के लिये हुआ  
 ४ उन के नाम ये ही हैं । नादाब और अबीहू तो जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सन्मुख उपरी आग लगे गये उस समय यहोवा के साम्हने निपुत्र ही मर गये पर एलाजार और ईतामार अपने पिता हारून के साम्हने याजक का काम करते रहे ॥  
 ५, ६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा लेवी गोत्रवालों को समीप ले आकर हारून याजक के साम्हने खड़ा कर  
 ७ कि वे उस की सेवा टहल करें । और जो कुछ उस की ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए उस की रक्षा वे मिलापवाले तंबू के साम्हने करें कि वे  
 ८ निवास की सेवा करें । वे मिलापवाले तंबू के सब सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा  
 ९ करें कि वे निवास की सेवा करें । और वे लेवीयों को हारून और उस के पुत्रों को दे दे और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पण किये हुए हों ।  
 १० और हारून और उस के पुत्रों को याजक के पद पर ठहरा रख और वे अपने याजकपद की रक्षा किया करें और यदि दूसरा मनुष्य समीप आए तो यह मार डाला जाए ॥  
 ११, १२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन इस्राएली स्त्रियों के सब पहिलीठों की सन्ती मैं इस्राएलियों में से  
 १३ लेवीयों को ले लेता हूँ सो लेवीय मेरे ही ठहरेंगे । सब पहिलीठे मेरे हैं क्योंकि जिस दिन मैं ने मिस्र देश में के सब पहिलीठों को मारा उसी दिन मैं ने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहिलीठों को अपने लिये पवित्र ठहराया सो वे मेरे ही ठहरेंगे मैं तो यहोवा हूँ ॥

फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, १४  
 लेवीयों में से जितने पुरुष एक महीने वा उस से अधिक १५  
 अवस्था के हों उन को उन के पितरों के घरानों और उन  
 के कुलों के अनुसार गिन ले । यह आज्ञा पाकर मूसा ने १६  
 यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया । लेवी के १७  
 पुत्रों के नाम ये हैं अर्थात् गेशोन कहात और मरारी ।  
 और गेशोन के पुत्र जिन से उस के कुल चले उन के १८  
 नाम ये हैं अर्थात् लिब्नी और शिमी । कहात के पुत्र १९  
 जिन से उस के कुल चले ये हैं अर्थात् अम्माम बिसहार  
 हेब्रोन और उज्जीएल । और मरारी के पुत्र जिन से उन २०  
 के कुल चले ये हैं अर्थात् महली और मूशी ये लेवीयों  
 के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार हैं ॥

गेशोन से लिब्नीयों और शिमीयों के कुल चले २१  
 गेशोनवंशियों के कुल ये ही हैं । इन में से जितने पुरुष २२  
 की अवस्था एक महीने की वा उस से अधिक थी उन  
 सभी की गिनती साठे सात हजार ठहरी । गेशोनवाले २३  
 कुल निवास के पीछे पच्छिम ओर अपने डेरे डाला करें ।  
 और गेशोनियों के मूलपुरुष के घराने का प्रधान लाएल २४  
 का पुत्र एल्यासाप हो । और मिलापवाले तंबू की जां २५  
 वस्तुएं गेशोनवंशियों को सौंपी जाएं वे ये हों अर्थात्  
 निवास और तंबू और उस का ओहार और मिलापवाले  
 तंबू के द्वार का पर्दा और जां आंगन निवास और वेदी २६  
 की चारों ओर है उस के पर्दे और उस के द्वार का पर्दा  
 और उस में बरतने की सब डोरियां ॥

फिर कहात से अम्मामियों बिसहारियों हेब्रोनियों और २७  
 उज्जीएलियों के कुल चले कहातियों के कुल ये ही हैं ।  
 उन में से जितने पुरुषों की अवस्था एक महीने की वा २८  
 उस से अधिक थी उन की गिनती आठ हजार छः सौ  
 ठहरी । वे पवित्र स्थान की रक्षा करनेहारे ठहरे । २९  
 कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे  
 डाला करें जो दक्खिन ओर है । और कहातवाले कुलों के ३०  
 मूलपुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलीसा-  
 पान हो । और जो वस्तुएं उन को सौंपी जाएं वे संदूक ३१  
 मेज दीवट बर्दियां और पवित्रस्थान का वह सामान जिस  
 से सेवा टहल होती है और पर्दा निदान पवित्रस्थान में  
 बरतने का सारा सामान हो । और लेवीयों के प्रधानों का ३२  
 प्रधान हारून याजक का पुत्र एलाजार हो और जो लोग  
 पवित्रस्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन  
 पर वही मुखिया ठहरे ॥

फिर मरारी से महलीयों और मूशीयों के कुल चले ३३  
 मरारी के कुल ये ही हैं । इन में से जितने पुरुषों की ३४  
 अवस्था एक महीने की वा उस से अधिक थी उन सभी

- ३५ की गिनती छः हजार दो सौ ठहरी । और मरारी के कुलों के मूलपुरुष के घराने का प्रधान अथीहैल का पुत्र सरी-एल हो वे लोग निवास की उत्तर ओर अपने डेरे खड़े ३६ करें । और जो वस्तुएं मरारीवंशियों को सौंपी जाएं कि वे उन की रक्षा करें वे निवास के तखते बड़े खंभे कुर्सियां और सारा सामान निदान जो कुछ उस के बर- ३७ तने में काम आए, और चांगे और के आंगन के खंभे ३८ और उन की कुर्सियां खूटे और डोरिया हो । और जो मिलापवाले तंबू के साम्हने अर्थात् निवास के साम्हने पूरब ओर जहां सूर्योदय होता है अपने डेरे डाला करें वे मूसा और पुत्रों सहित हारून हों और पवित्रस्थान जो इस्राएलियों को सौंपा गया उस की रखवाली वे ही किया करें और दूसरा जो कोई उस के समीप आए वह मार ३९ डाला जाए । यहोवा की यही आज्ञा पाके एक महीने की वा उस से अधिक अवस्थावाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उन के कुलों के अनुसार गिन लिया वे सब के सब बाईस हजार ठहरे ॥
- ४० फिर यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों के जितने पहिलौठे पुरुषों की अवस्था एक महीने की वा उस से ४१ अधिक है उन सभी को नाम ले लेके गिन ले । और मेरे लिये इस्राएलियों के सब पहिलौठों की सन्ती लेवीयों को और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहिलौठों की ४२ सन्ती लेवीयों के पशुओं को ले मैं तो यहोवा हूं । यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब ४३ पहिलौठों को गिन लिया । और सब पहिलौठे पुरुष जिन की अवस्था एक महीने की वा उस से अधिक थी उन के नामों की गिनती बाईस हजार दो सौ तिहत्तर ठहरी ॥
- ४४, ४५ तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहिलौठों की सन्ती लेवीयों को और उन के पशुओं की सन्ती लेवीयों के पशुओं को ले तो लेवीय मेरे ही ठहरे ४६ मैं तो यहोवा हूं । और इस्राएलियों के पहिलौठों में से जो दो सौ तिहत्तर गिनती में लेवीयों से अधिक है उन के ४७ छुड़ाने के लिये, पुरुष पीछे पांच शेकेल ले वे पवित्रस्थान- ४८ वाले अर्थात् बीस गंरा का शेकेल हो । और जो रुपया उन अधिक पहिलौठों की छुड़ौती का होगा उसे हारून ४९ और उस के पुत्रों को देना । सो जो इस्राएली पहिलौठे लेवीयों के द्वारा छुड़ाये हुआ से अधिक थे उन के हाथ ५० से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया । सो एक हजार तीन सौ पैसठ पवित्रस्थानवाले शेकेल रुपया ठहरा । ५१ और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाये हुआ का रुपया हारून और उस के पुत्रों को दिया ॥

(लेवीयों के कर्तव्य कर्म)

४. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा २  
लेवीयों में से कहातियों की उन के  
कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करे ३  
अर्थात् तीस बरस से लेकर पचास बरस लों की अवस्था-  
वालों की सेना में जितने मिलापवाले तंबू में कामकाज ४  
करने को भरती हैं । मिलापवाले तंबू में परमपवित्र  
वस्तुओं के विषय कहातियों की यह सेवकाई ठहरे ५  
अर्थात् जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और  
उस के पुत्र भीतर आकर बीचवाले पर्दे को उतारके ६  
उस से साक्षीपत्र के सन्दूक को ढांप दें । तब वे उस पर  
सूइसों की खालों का आहार डालें और इस के ऊपर ७  
संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और सन्दूक में डण्डों  
को लगाए । फिर भेंटवाली रोटी की मेज पर नीला ८  
कपड़ा बिछा कर उस पर यरातों धूपदानों करवो और  
उंडेलने के कटोरों को रख और नित्य की रोटी भी उस ९  
पर हो । तब वे उन पर लाही रङ्ग का कपड़ा बिछाकर  
उस को सूइसों की खालों के आहार से ढांपें और मेज १०  
के डण्डों को लगा दें । फिर वे नीले रङ्ग का कपड़ा ले  
कर दीपकों गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला ११  
देनेहारे दीवट को और उस के सब तेल के पात्रों को  
जिन से उस की सेवा टहल होती है ढांपें । तब वे सारे १२  
सामान समेत दीवट को सूइसों की खालों के आहार के  
भीतर रखकर डण्डे पर धर दें । फिर वे सोने की वेदी पर १३  
एक नीला कपड़ा बिछाकर उस को सूइसों की खालों के  
आहार से ढांपें और उस के डण्डों को लगा दें । तब वे १४  
सेवा टहल के सारे सामान को ले जिस से पवित्रस्थान  
में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रख कर  
सूइसों की खालों के आहार से ढांपें और डण्डे पर धर १५  
दें । फिर वे वेदी पर से सब राख उठा कर वेदी पर  
बैजनी रङ्ग का कपड़ा बिछाएं । तब जिस सामान से १६  
वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब अर्थात् उस के  
करछे कांटे फावाड़ियां और कटोरे आदि वेदी का सारा  
सामान उस पर रखें और उस के ऊपर सूइसों की १७  
खालों का आहार बिछाकर वेदी में डण्डों को लगाए ।  
और जब हारून और उस के पुत्र छावनी के कूच के १८  
समय पवित्रस्थान और उस के सारे सामान को ढांप  
चुके तब उस के पीछे कहाती उस के उठाने के लिये  
आएं पर किसी पवित्र वस्तु को न छूएं न ही कि मर १९  
जाएं कहातियों का भार मिलापवाले तंबू की ये ही  
वस्तुएं ठहरे । और जो वस्तुएं हारून के पुत्र एलाजार २०  
को सौंपी जाएं वे ये हैं अर्थात् उजियाला देने के लिये

तेल और सुगन्धित धूप और नित्य अन्नबलि और अभि-  
वेक का तेल और सारे निवास और उस में की सब वस्तुओं  
और पवित्रस्थान और उस के सारे सामान की रक्षा ॥

१७. १८ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों  
के कुलों के गोत्रियों को लेवीयों में से नाश न होने  
१९ देना । उन के साथ ऐसा करो कि जब वे परमपवित्र  
वस्तुओं के समीप आएँ तब न मरें पर जीते रहें अर्थात्  
हारून और उस के पुत्र भीतर आकर एक एक के लिये  
२० उस की सेवकाई और उस का भार ठहराएँ । और वे  
पवित्र वस्तुओं के देखने का क्षण भर के लिये भी भीतर  
आने न पाएँ न हो कि मर जाएँ ॥
२१. २२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेशोनियों की भी  
गिनती उन के पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार  
२३ कर । तीस बरस से लेकर पचास बरस लों की अवस्था-  
वाले जितने मिलापवाले तम्बू में सेवा करने को सेना में  
२४ भरती हों उन सभी को गिन ले । सेवा करने और भार  
उठाने में गेशोनियों के कुलवालों की यह सेवकाई ही  
२५ अर्थात् वं निवास के पटों और मिलापवाले तम्बू और  
उम के ओहार और इस के ऊपरवाले सूइसा की खालों  
२६ के ओहार और मिलापवाले तम्बू के द्वार के पर्दों, और  
निवास और वेदी की चारों ओर के आंगन के पर्दों और  
आंगन के द्वार के पर्दों और उन की डोरियों और उन में  
बरतने के सारे सामान इन सभी को वे उठाया करें और  
इन वस्तुओं से जितना काम हो वह सब उन की सेवकाई  
२७ में आए । और गेशोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून  
और उस के पुत्रों के कहे से हुआ करे अर्थात् जो कुछ उन  
को उठाना और जो जो सेवकाई उन को करनी हो उन  
का सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो । मिलापवाले  
२८ तम्बू में गेशोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और  
उन पर हारून याजक का पुत्र ईतामार अधिकार रखे ॥
२९. फिर मरारीयों को भी तुम उन के कुलों और पितरों के  
३० घरानों के अनुसार गिन ले । तीस बरस से लेकर पचास  
बरस लों की अवस्थावाले जितने मिलापवाले तम्बू की  
सेवा करने को सेना में भरती हों उन सभी को गिन ले ।  
३१ और मिलापवाले तम्बू में की जिन वस्तुओं के उठाने की  
सेवकाई उन को मिले वे ये हों अर्थात् निवास के तखते  
३२ बड़े खम्भे और कुर्सियाँ, और चारों ओर के आंगन के  
खम्भे और इन की कुर्सियाँ खटे डोरियाँ और भाँति भाँति  
के बरतने का सारा सामान । और जो जो सामान दोनों  
के लिये उन को सौंपा जाए उस में से एक एक वस्तु का  
३३ नाम लेकर तुम गिन दो । मरारीयों के कुलों की सारी  
सेवकाई जो उन्हें मिलापवाले तम्बू के विषय करनी होगी

वह यही है वह हारून याजक के पुत्र ईतामार के  
अधिकार में रहे ॥

सो मूसा और हारून और मण्डली के प्रधानों ने ३४  
कहातियों के वंश को उन के कुलों और पितरों के घरानों  
के अनुसार, तीस बरस से लेकर पचास बरस लों की ३५  
अवस्था के जितने मिलापवाले तम्बू की सेवकाई करने  
को सेना में भरती हुए थे उन सभी को गिना । और जो ३६  
अपने अपने कुल के अनुसार गिने गये वे दो हजार साढ़े  
सात सौ ठहरे । कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप- ३७  
वाले तम्बू में सेवा करनेवाले गिने गये वे इतने ही  
ठहरे । जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी उस के  
अनुसार मूसा और हारून ने इन को गिन लिया ॥

और गेशोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के ३८  
घरानों के अनुसार गिने गये, अर्थात् तीस बरस से ले ३९  
कर पचास बरस लों की अवस्था के जो मिलापवाले  
तम्बू की सेवकाई करने को सेना में भरती हुए थे, उन ४०  
की गिनती उन के कुलों और पितरों के घरानों के  
अनुसार दो हजार छः सौ तीस ठहरी । गेशोनियों के कुलों ४१  
में से जितने मिलापवाले तम्बू में सेवा करनेवाले गिने  
गये वे इतने ही ठहरे । यहोवा की आज्ञा के अनुसार  
मूसा और हारून ने इन को गिन लिया ॥

फिर मरारीयों के कुलों में से जो अपने कुलों और ४२  
पितरों के घरानों के अनुसार गिने गये, अर्थात् तीस बरस ४३  
से लेकर पचास बरस लों की अवस्था के जो मिलापवाले  
तम्बू की सेवकाई करने को सेना में भरती हुए थे, उन ४४  
की गिनती उन के कुलों के अनुसार तीन हजार दो सौ  
ठहरी । मरारीयों के कुलों में से जिन को मूसा और ४५  
हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के  
द्वारा मिली गिन लिया वे इतने ही ठहरे ॥

लेवीयों में से जिन को मूसा और हारून और इस्रा- ४६  
एली प्रधानों ने उन के कुलों और पितरों के घरानों के  
अनुसार गिन लिया, अर्थात् तीस बरस से लेकर पचास ४७  
बरस लों की अवस्थावाले जितने मिलापवाले तम्बू की  
सेवकाई करने और बंध उठाने का काम करने को  
हाजिर होनेहारे थे, उन सभी की गिनती आठ हजार ४८  
पाँच सौ अस्सी ठहरी । ये अपनी अपनी सेवा और बंध ४९  
दोने के अनुसार यहोवा के कहे से मूसा के द्वारा गिने  
गये । जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के  
अनुसार वे उस से गिने गये ॥

(कीड़ी आदि अशुभ लोगों का बाहर कर दिया जाना)

५. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्रा- २  
एलियों को आज्ञा दे कि तुम सब

कोदियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों उन सभी को छावनी से निकाल दो । ऐसी को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकाल कर बाहर कर दे न हो कि तुम्हारी छावनी जिस के बीच मैं निवास करता हूँ उन के कारण अशुद्ध हो । और इस्राएलियों ने वैसा ही किया अर्थात् ऐसे लोगों को छावनी से निकाल बाहर कर दिया जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था इस्राएलियों ने वैसा ही किया ॥

(दोषों की क्षान्ति भग्ने की विधि)

५, ६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष वा स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और ७ वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरे मूल में पांचवां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिस के विषय दोषी हुआ ८ हो । पर यदि उस मनुष्य का कोई कुटुम्बी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का ठहरे वह उस प्रायश्चित्तवाले मंढे से अधिक हो जिस से उस ९ के लिये प्रायश्चित्त किया जाए । और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेंट करके याजक के १० पास लाएँ सो उसी की ठहरे । मन्व मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे कोई जो कुछ याजक को दे वह उस का ठहरे ॥

(पति के अपना स्त्री पर जलने की व्यवस्था)

११, १२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर<sup>१</sup> उस का १३ विश्वासघात करे, और कोई पुरुष उस के साथ कुकर्म करे पर यह बात उस के पति से छिपी हो और खुली न हो और वह अशुद्ध हो गई पर न तो उस के विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो १४ और उस के पति के मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात् वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो वा उस के मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात् वह अपनी १५ स्त्री पर जलने लगे पर वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उस के लिये एषा का दसवां अंश जब का मैदा चड़ावा करके ले आए पर उस पर न तेल डाले न लोबान रक्खे क्योंकि वह जलनवाला और स्मरण दिलानेहारा अर्थात्

(१) मूल में इटके ।

अधर्म का स्मरण करानेहारा अन्नबलि होगा । तब १६ याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के साम्हने खड़ी करे । और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले १७ और निवासस्थान की भूमि पर की धूलि में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे । तब याजक उस स्त्री को यहोवा १८ के साम्हने खड़ी करके उस के सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलानेहारे अन्नबलि को जो जलनवाला है उस के हाथों पर धर दे और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिये रहे जो स्नाप लगने का कारण होगा । तब याजक स्त्री को किरिया धराकर कहे कि यदि किसी १९ पुरुष ने तुझ से कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध न हो गई हो तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो स्नाप का कारण होता है बर्ची रहे । पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर २० फिरके अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझ से प्रसंग किया हो, और याजक उसे स्नाप २१ देनेहारी किरिया धराकर कहे यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोंग तेरा नाम लेकर स्नाप और धिक्कार<sup>२</sup> दिया करे । अर्थात् यह जल जो स्नाप २२ का कारण होता है तेरी अन्तरियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे । तब वह स्त्री कहे आमेन आमेन । तब याजक स्नाप के ये शब्द पुस्तक में २३ लिखकर उस कड़वे जल से मिटाके, उस स्त्री को वह २४ कड़वा जल पिलाए जो स्नाप का कारण होता है सो वह जल जो स्नाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा । और याजक स्त्री के हाथ में से २५ जलनवाले अन्नबलि को ले यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए । और याजक उस अन्नबलि में से उस २६ का स्मरण दिलानेहारा भाग अर्थात् मुट्टी भर लेकर वेदी पर जलाए और उस के पीछे स्त्री को वह जल पिलाए । और जब वह उसे वह जल पिला चुके तब यदि वह २७ अशुद्ध हुई और अपने पति का विश्वासघात किया हो तो वह जल जो स्नाप का कारण होता है सो उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उस का पेट फूलेगा और उस की जांघ सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उस के लोगों के बीच स्नाप में लिया जाएगा । पर २८ यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई शुद्ध ही हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भणी हो सकेगी । जलन की व्यवस्था यही २९ है चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो ३०

(१) मूल में किरिया ।

और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे तो वह उस को यहोवा के सन्मुख खड़ी कर दे और याजक उस पर यह ३१ सारी व्यवस्था पूरी करे । तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी ॥

(नाजीरों की व्यवस्था)

२ **६. फिर** यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष वा स्त्री नाजीर<sup>१</sup> की मन्त अर्थात् अपने को यहोवा के लिये ३ न्यारा करने की विशेष मन्त माने, तब वह दाखमधु आदि मदिरा से न्यारा रहे वह न दाखमधु का न और मदिरा का सिरका पीए और न दाख का कुछ रस भी ४ पीए बरन दाख न खाए चाहे हरी हो चाहे सूखी । जितने दिन यह न्यारा रहे उतने दिन लों वह बीज से ले ५ छिलके लों जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उस में से कुछ न खाए । फिर जितने दिन उस ने न्यारे रहने की मन्त मानी हो उतने दिन लों वह अपने सिर पर छुरा न फिराए और जब लों वे दिन पूरे न हों जिन में वह यहोवा के लिये न्यारा रहे तब लों वह पवित्र ठहरेगा ६ और अपने सिर के बालों को बढ़ाये रहें । जितने दिन वह यहोवा के लिये न्यारा रहे उतने दिन लों किसी लौथ के ७ पास न जाए । चाहे उस का पिता वा माता वा भाई वा बहिन भी मरे तो भी वह उन के कारण अशुद्ध न हो क्योंकि उस के अपने परमेश्वर के लिये न्यारे रहने का ८ चिन्ह<sup>२</sup> उस के सिर पर होगा । अपने न्यारे रहने के सारे ९ दिनों में वह यहोवा के लिये पवित्र ठहरा रहे । और यदि कोई उस के पास अचानक मर जाए और उस के न्यारे रहने का जो चिन्ह<sup>३</sup> उस के सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात् सातवें दिन अपना १० सिर मुड़ाए । और आठवें दिन वह दो पिङ्क वा कबूतरी के दो बच्चे मिलापवाले तंभ के द्वार पर याजक के पास ११ ले जाए । और याजक एक को पापबलि और दूसरे को होमबलि कर के उस के लिये प्रायश्चित्त करे क्योंकि यह लौथ के कारण पापी ठहरा है और याजक उसी दिन उस १२ का सिर फिर पवित्र करे । और वह अपने न्यारे रहने के दिनों का फिर यहोवा के लिये न्यारे ठहराए और बरस दिन का एक मेड़ का बच्चा दीषबलि करके ले आए और जो दिन इस से पाहले बीत गये हों वे व्यर्थ गिने जाएं क्योंकि उस के न्यारे रहने का चिन्ह<sup>४</sup> अशुद्ध हो गया ॥ १३ फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो उस

समय के लिये उस की यह व्यवस्था है अर्थात् वह मिलापवाले तंभ के द्वार पर पहुंचाया जाए । और वह १४ यहोवा के लिए होमबलि करके बरस दिन का एक निर्दोष मेड़ का बच्चा पापबलि करके और बरस दिन की एक निर्दोष मेड़ की बच्ची और मेलबलि करके निर्दोष मेड़ा, और अखमीरी रौंटियाँ की एक टोकरी अर्थात् तेल से १५ सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियाँ और उन बलियों के अन्नबलि और अर्घ्य ये सब चढ़ावे समीप ले जाए । इन सब को याजक यहोवा के १६ साम्हने पहुंचाकर उस के पापबलि और होमबलि को चढ़ाए, और अखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेड़े का १७ यहोवा के लिये मेलबलि करके और उस मेलबलि के अन्नबाल और अर्घ्य को भी चढ़ाए । तब नाजीर अपने १८ न्यारे रहने के चिन्हवाले<sup>५</sup> सिर को मिलापवाले तंभ के द्वार पर मुण्डाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेलबलि के नीचे होगी । फिर जब नाजीर अपने १९ न्यारे रहने के चिन्हवाले<sup>५</sup> सिर को षण्डा चुके तब याजक मेड़े का सभा हुआ कन्धा और टोकरी में से एक अखमीरी रोटी और एक अखमीरी पपड़ी लेकर नाजीर के हाथों पर धर दे । और याजक इन को हिलाने २० की भेंट करके यहोवा के साम्हने हिलाए हिलाई हुई छाती और उठाई हुई पांश समेत ये भी याजक के लिये पवित्र ठहरें । इस के पीछे वह नाजीर दाखमधु पी सकेगा । नाजीर की मन्त की और जो चढ़ावा उस का २१ अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिये चढ़ाना होगा उस की भी यही व्यवस्था है । जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके उस से अधिक जैसी मन्त उस ने मानी हो वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा ॥

(याजकों के आशीर्वाद देने की रीति)

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उस २२ के पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों का इन बच्चों से आशीर्वाद दिया करना कि ॥ यहोवा तुझे आशिष दे और तेरी रक्षा करे ॥ २४ यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए २५ और तुझ पर अनुग्रह करे ॥ यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे २६ शांति दे ॥ इस रीति वे इस्राएलियों को मेरे<sup>६</sup> ठहराए और मैं २७ आप उन्हें आशिष दिया करूंगा ॥

(१) अर्थात् न्यारा किया हुआ । (२) वा उस के परमेश्वर का मुकुट ।

(३) वा उस का जो मुकुट । (४) वा उस का मुकुट ।

(५) वा अपने मुकुटवाले ।

(६) मूल में और वे मेरा नाम इस्राएलियों पर धरे ।

( वेदी के अभिषेक के उत्सव की भेंट)

## ७. फिर

- जब मूसा निवास का खड़ा कर चुका और सारे सामान समेत उस का अभिषेक करके उस को पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर टहरे थे, वे यहोवा के साम्हने भेंट ले आये और उन की भेंट छः झाई हुई गाड़ियां और बागह बैल थे अर्थात् दो दो प्रधान पीछे तो एक एक गाड़ी और एक एक प्रधान पीछे एक एक बैल इन्हें वे निवास के साम्हने यहोवा के समीप ले गये । तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को उन से ले ले कि मिलापवाले तंबू के बरतने में लगें सो तू उन्हें लेवीयों के एक एक कूलकी विशेष सेवकाई के अनुसार उन को दे दे । सो मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवीयों को दे दिये । गोशोनियों को तो उन की सेवकाई के अनुसार उस ने दो गाड़ियां और चार बैल दिये । और मरारीयों को उन की सेवकाई के अनुसार उस ने चार गाड़ियां और आठ बैल दिये ये सब हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में किये गये । और कहातियों को उस ने कुछ न दिया क्योंकि उन के लिये पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वे उन की कंधों पर उठा लें ॥
- १० फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उस के संस्कार की भेंट वेदी के साम्हने समीप ले जाने लगे ।
- ११ तब यहोवा ने मूसा से कहा वेदी के संस्कार के लिये प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर ले आएं ॥
- १२ सो जो पुरुष पहिले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्रवाले अम्मिनादाब का पुत्र महशोन था । उस की भेंट यह थी अर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल के लेखे से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक परात और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे ।
- १४ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, १५ होमबलि के लिये एक बछड़ा एक मेढ़ा और बरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, पापबलि के लिये एक बकरा, १६ और मेलबलि के लिये दो बैल पांच मेंढे पांच बकरे और बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे अम्मिनादाब के पुत्र महशोन की यही भेंट थी ॥
- १८ दूसरे दिन इस्राएल का प्रधान सूअर का पुत्र १९ नतनेल भेंट ले आया । वह यह थी अर्थात् पवित्रस्थानवाले

शेकेल के लेखे से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक परात और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे । फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिये एक बछड़ा एक मेढ़ा और बरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, पापबलि के लिये एक बकरा, और मेलबलि के लिये दो बैल पांच मेंढे पांच बकरे और बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे सूअर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी ॥

तीसरे दिन जबलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआब यह भेंट ले आया, अर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल के लेखे से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक परात और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे । फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिये एक बछड़ा एक मेढ़ा और बरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, पापबलि के लिये एक बकरा, और मेलबलि के लिये दो बैल पांच मेंढे पांच बकरे और बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे हेलोन के पुत्र एलीआब की यही भेंट थी ॥

चौथे दिन रुवेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, अर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल के लेखे से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक परात और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे । फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिये एक बछड़ा एक मेढ़ा और बरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, पापबलि के लिये एक बकरा, और मेलबलि के लिये दो बैल पांच मेंढे पांच बकरे और बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे शदेऊर के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी ॥

पांचवें दिन शिमानियों का प्रधान सूरीशदं का पुत्र गलुमीएल यह भेंट ले आया, अर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल के लेखे से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक परात और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे । फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, होमबलि के लिये एक बछड़ा एक मेढ़ा और बरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, पापबलि के लिये एक बकरा, और मेलबलि के लिये दो बैल पांच मेंढे पांच बकरे और बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे सूरीशदं के पुत्र गलुमीएल की यही भेंट थी ॥





के शेकेल के लेखे मे दस दस शेकेल के थे वे सब धूप-  
 ८७ दान एक सौ बीस शेकेल सोने के थे । फिर होमबलि के  
 लिये सब मिला कर बारह बछड़े बारह मूठे और बरस  
 बरस दिन के बारह भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्नबलि  
 ८८ समेत थे फिर पापबलि के सब बकरे बारह थे । और  
 मेलबलि के लिये सब मिला कर चौबीस बैल साठ मूठे  
 साठ बकरे और बरस बरस दिन के साठ भेड़ी के बच्चे थे  
 वेदी के अभिषेक होने के पीछे उस के संस्कार की भेंट  
 ८९ यही हुई । और जब मूसा यहोवा से बातें करने का  
 मिलापवाले तंबू में गया तब उस को उस की वाणी  
 सुन पड़ी जो साक्षीपत्र के संदूक पर के प्रायश्चित्त के  
 टुकने के ऊपर से दानों करुबों के बीच में से उस के  
 साथ बातें कर रहा था सो यहोवा ने उस से बातें की ॥

(दीवट के बरने की रीति)

२ **८. फिर** यहोवा ने मूसा से कहा, हारून  
 को समझा कर यह कह कि जब  
 जत्र तू दीपकों को बारे तब तब सातों दीपक दीवट  
 ३ के साम्हने को प्रकाश दे । तब हारून वैसा ही करने  
 लगा अर्थात् जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी उस के  
 अनुसार उस ने दीपकों को बारा कि वे दीवट के साम्हने  
 ४ को प्रकाश दें और दीवट की बनावट यह थी अर्थात्  
 यह पाये से ले फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया  
 गया । जो नमूना यहांवा ने मूसा का दिखाया था उसी  
 के अनुसार उस ने दीवट को बनवाया ॥

(लेवायों के नियुक्त होने का वर्णन)

५, ६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के बीच  
 ७ में से लेवीयों को लेकर शुद्ध कर । उन्हें शुद्ध करने के  
 लिये तू ऐसा कर कि उन पर पाप छुड़ा के पावन करने-  
 वाला जल छिड़क दे फिर वे सर्वाङ्ग मूखन कराएं और  
 ८ वस्त्र धोएं और वे अपने को शुद्ध करें । तब वे तैल से  
 सने हुए मैदे के अन्नबलि समेत एक बछड़ा ले लें और  
 ९ तू पापबलि के लिये एक और बछड़ा लेना । और तू  
 लेवीयों को मिलापवाले तंबू के साम्हने समीप पहुंचाना  
 और इस्राएलियों की सारी मण्डली को इकट्ठा करना ।  
 १० तब तू लेवीयों को यहोवा के साम्हने समीप ले आना  
 ११ और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर टेंकें । तब  
 हारून लेवीयों को यहोवा के साम्हने इस्राएलियों की  
 और से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा  
 १२ का सेवा करनेहारे ठहरें । और लेवीय अपने अपने  
 हाथ उन बछड़ों के सिंगे पर टेंकें, तब तू लेवीयों के  
 लिये प्रायश्चित्त करने का एक बछड़ा पापबलि और दूसरा  
 १३ होमबलि करके यहोवा के लिये चढ़ाना । और लेवीयों

को हारून और उस के पुत्रों के साम्हने खड़ा करना, कि  
 वे यहोवा को हिलाई हुई भेंट जान के अर्पण किये जाएं  
 और उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना, सो वे मेरे ही १४  
 ठहरेंगे । और जब तू लेवीयों को शुद्ध करके हिलाई हुई १५  
 भेंट जानकर अर्पण कर चुके उस के पीछे वे मिलापवाले  
 तंबू संबन्धी सेवा करने को आया करें । क्योंकि वे १६  
 इस्राएलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किये हुए हैं  
 मैं ने उन को सब इस्राएलियों में से एक एक स्त्री के  
 पहिलौठे की सन्ती अपना कर लिया है । इस्राएलियों के १७  
 पहिलौठे चाहे मनुष्य के हां चाहे पशु के सब मेरे हैं  
 क्योंकि मैं ने उन्हें उस समय अपने लिये पवित्र ठहराया  
 जब मिस्र देश में के सारे पहिलौठों को मार डाला । और १८  
 मैं ने इस्राएलियों के सारे पहिलौठों के बदले लेवीयों को  
 लिया है । उन्हें लेके मैं ने हारून और उस के पुत्रों को १९  
 इस्राएलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप-  
 वाले तंबू में इस्राएलियों के निमित्त सेवकाई और प्राय-  
 श्चित्त किया करें न हो कि जब इस्राएली पवित्रस्थान के  
 समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति पड़े । लेवीयों २०  
 के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून  
 और इस्राएलियों की सारी मण्डली ने उन से ठीक ऐसा  
 ही किया । लेवीयों ने तो अपने को पाप छुड़ाके पावन २१  
 किया और अपने वस्त्रों को धो डाला और हारून ने उन्हें  
 यहोवा के साम्हने हिलाई हुई भेंट जानके अर्पण किया  
 और उन्हें शुद्ध करने को उन के लिये प्रायश्चित्त किया ।  
 और उस के पीछे लेवीय हारून और उस के पुत्रों २२  
 के साम्हने मिलापवाले तंबू में की अपनी अपनी सेवकाई  
 करने को गये और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवीयों के  
 विषय दी थी उस के अनुसार वे उनसे बर्ताव करने लगे ॥  
 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवीयों को २३, २४  
 करना है वह यह है कि पचास बरस की अवस्था से वे  
 मिलापवाले तंबू संबन्धी सेवा में लगे रहने का आने लगे ।  
 और पचास बरस की अवस्था से वे उस सेवा में लगे रहने २५  
 से छूट कर आगे को न करें । पर वे अपने भाईबन्धुओं २६  
 के साथ मिलापवाले तंबू के पास रक्षा का काम किया  
 करें और किसी प्रकार की सेवकाई न करें लेवीयों को  
 जो जो काम सौंपे जाएं उन के विषय ऐसा ही करना ॥

(दूसरी बार फसह का माना जाना और सदा के लिये फसह की विधि)

६. **इस्राएलियों** के मिस्र देश से निकलने के  
 दूसरे बरस के पहिले महीने  
 में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इस्राएली २  
 फसह नाम पर्व को उस के नियत समय पर मानें । अर्थात् ३  
 इसी महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के समय तुम

- लाग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना ।
- ४ तब मूसा ने इस्राएलियों से फसह मानने को कह दिया ।
- ५ सो उन्होंने पहिले महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के समय सीनै के जंगल में फसह को माना और जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दीं उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया । पर कितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मान सके सो वे उसी दिन मूसा और हारून के साम्हने समीप जाकर, मूसा से कहने लगे हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध हैं पर हम काहे को रुके रहें कि और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न चढ़ाएं । मूसा ने उन से कहा ठहरे रहो मैं जान लू कि यहांवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है ॥
- ६, १० यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों में कह कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो वा दूर की यात्रा पर हो तो भी वह यहांवा के लिये फसह को माने । वे उसे दूसरे महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के समय माने और फसह के बलिपशु के मांस को अखमीरी रोटी और कडुवै सागपात के साथ खाएं, और उस में से कुछ भी बिहान लों रख न छोड़ें और न उस की कोई हड्डी तोड़ें वे उस पर्व को फसह को सारी विधियों के अनुसार मानें । पर जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो पर फसह के पर्व को न माने वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा ।
- १४ और यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिये फसह माने तो वह उस की विधि और नियम के अनुसार उस को माने देशी परदेशी दोनों के लिये तुम्हारी एक ही विधि हो ॥
- (इस्राएलियों की यात्रा की रीति)
- १५ जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहावता है खड़ा किया गया उस दिन बादल उस पर छा गया और सांभ को वह निवास पर आग सा देख पड़ा और भोर लों दिखाई देता था । और नित्य ऐसा हुआ करता था अर्थात् दिन को वह बादल और रात को आग सा कुछ उस पर छा जाया करता था । और जब जब वह बादल तंबू पर से उठाया जाता तब तब इस्राएली कूच करते थे और जहां कहीं बादल ठहर जाता वहीं इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे । यहोवा के कहे से इस्राएली कूच करते और यहोवा के कहे से वे डेरे खड़े भी करते थे और जितने दिन लों वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन

लों वे डेरे डाले पड़े रहते थे । और जब जब बादल बहुत ११ दिन निवास पर छाया रहता तब तब इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते हुए कूच न करते थे । और कभी कभी वह २० बादल थोड़े ही दिन लों निवास पर रहता तब वे यहोवा के कहे से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा के कहे से कूच करते थे । और कभी कभी बादल केवल सांभ से २१ भोर लों रहता और जब भोर को वह उठ जाता था तब वे कूच करते थे और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तब ही वे कूच करते थे । वह २२ बादल चाहे दो दिन चाहे एक महीना चाहे बरस भर जब लों निवास पर ठहरा रहता तब लों इस्राएली अपने डेरों में रहते और कूच न करते थे । पर जब वह उठ जाता तब वे कूच करते थे । यहोवा के कहे से वे अपने डेरे खड़े २३ करते और यहोवा के कहे से वे कूच करते थे जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता उस को वे माना करते थे ॥

(चांदी की तुरहियों के बनाने और बरतने की विधि)

१० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की २ दो तुरही गढ़ाके बनवा ले वं तुम्हें मण्डली के बुलाने और छावनियों के कूच करने में काम आए । और जब वे दानो फंकी जाएं तब सारी मण्डली ३ मिलापवाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो । और याद ४ एक ही तुरही फंकी जाए तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठी हो जाएं । जब तुम लोग सांस बांधकर फंको तो पूरब दिशा की ५ छावनियों का कूच हो । और जब तुम दूसरी बेर सांस ६ बांधकर फंको तब दक्खिन दिशा की छावनियों का कूच हो उन के कूच करने के लिये वे सांस बांधकर फंके । और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी ७ फंकना पर सांस बांधकर नहीं । और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उन तुराहियों को फंका करें यह बात तुम्हारी पीढी पीढी के लिये सदा की विधि ठहर । और जब तुम ८ अपने देश में किसी सतानेहारे बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरहियों को सांस बांधकर फंकना तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाये जाओगे । और अपने आनन्द के दिन १० में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होमबलियों और मलबलियों के साथ उन तुरहियों को फंकना इस से तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ ॥

(इस्राएलियों का सीनै पर्वत में प्रस्थान करना)

दूसरे बरस के दूसरे महीने के तीसवें दिन को बादल ११ गाक्षी के निवास पर से उठाया गया । तब इस्राएली सीनै १२

के जंगल में से निकलकर कूच करने लगे और बादल  
 १३ पारान नाम जंगल में ठहर गया । उन का कूच यहोवा  
 की उस आशा के अनुसार जो उस ने मूसा को दी थी  
 १४ आरंभ हुआ । पहिले तो यहूदियों की छावनी के भंडे  
 का कूच हुआ और वे दल दल होकर चले और उन का  
 १५ सेनापति अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था । और  
 इम्माकारियों के गोत्र का सेनापति सूआर का पुत्र  
 १६ नतनेल था । और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन  
 १७ का पुत्र एलीआब था । तब निवास उतारा गया और  
 गेशोनियों और मरारीयों ने निवास को उठाये हुए कूच  
 १८ किया फिर रुबेन की छावनी के भंडे का कूच हुआ और  
 वे भी दल दल होकर चले और उन का सेनापति शदेऊर  
 १९ का पुत्र एलीएर था । और शिमोनियों के गोत्र का  
 २० सेनापति सूरीशदै का पुत्र शलुमीएल था । और गादियों  
 २१ के गोत्र का सेनापति दूएल का पुत्र एल्यासाप था । तब  
 कहातियों ने पावत्र वस्तुओं को उठाये हुए कूच किया  
 और उन के पहुंचने लगे गेशोनियों और मरारीयों ने निवास  
 २२ को उठा लिया । फिर एप्रैमियों की छावनी के भंडे का  
 कूच हुआ और वे भी दल दल होकर चले और उन का  
 २३ सेनापति अम्मीहद का पुत्र एलीशामा था । और मन-  
 शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गल्लीएल  
 २४ था । और बिन्यामोनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी  
 २५ का पुत्र अवीदान था । फिर दाभियों की छावनी जो सब  
 छावनियों के पीछे थी उस के भंडे का कूच हुआ और वे  
 भी दल दल होकर चले और उन का सेनापति अम्मीशदै  
 २६ का पुत्र अहीएजेर था । और आशेरियों के गोत्र का  
 २७ सेनापति ओकान का पुत्र पगीएल था । और नमालीयों  
 के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहारा था ।  
 २८ इस्राएलियों के कूच दल बांध के ऐसे ही होते थे ॥  
 २९ और मूसा ने अपने समुर रूपल मिद्यानी के पुत्र होवाब  
 से कहा हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिस के  
 विषय यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुम को दूंगा सो तू भी  
 हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करगे क्योंकि यहोवा  
 ३० ने इस्राएल के विषय भलाई ही कहा है । होवाब ने उस से  
 कहा मैं न जाऊंगा मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट  
 ३१ जाऊंगा । फिर मूसा ने कहा हम को न छोड़ क्योंकि हमें  
 जंगल में कहां कहां डेरा खड़ा करना चाहिये यह तुम्हें तो  
 ३२ मालूम होगा तू हमारे लिये आखा का काम देना । और  
 यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा  
 हम से करे उसी के अनुसार हम भी तुम्ह से करेंगे ॥

३३ सो इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से कूच करके

(१) मूल में उन्हा ।

तीन दिन की यात्रा की और उन तीनों दिनों के भाग  
 में यहोवा की वाचा का संदूक उन के लिये विश्राम का  
 स्थान दूहता हुआ उन के आगे आगे चलता रहा ।  
 और जब वे छावनी के स्थान से कूच करते तब दिन भर ३४  
 यहोवा का बादल उन के ऊपर छाया रहता था । और ३५  
 जब जब संदूक का कूच होता तब तब मूसा यह कहा  
 करता था कि हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर  
 हों और तेरे बैरी तेरे साम्हने से भाग जाएं । और जब जब ३६  
 वह ठहर जाता तब तब मूसा कहा करता था कि हे यहोवा  
 इस्राएल के हजारों हजार के बीच लौटकर आ ॥

(इस्राएलियों का कुच्छुडाना और इस का दण्ड भोगना)

११. फिर वे लोग कुच्छुडाने और यहोवा  
 के सुनते बुरा कहने लगे सो यहोवा

ने सुना और उस का कोप भड़का और यहोवा की आर में  
 आग उन में जल उठी और जो छावनी के किनारों पर  
 थे उन को भस्म कर डाला । तब लोग मूसा के पास २  
 जाकर चिल्लाये और मूसा ने यहोवा में प्रार्थना की तब  
 वह आग बुझ गई । सो उस स्थान का नाम तवेरा पड़ा ३  
 क्योंकि यहोवा की आर में आग उन में जली थी ॥

फिर जा मिली जुली भीड़ उन के साथ थी वह ४  
 अति तृप्णा करने लगे और इस्राएली भी फिर रोने और  
 यह कहने लग कि हमें मांस खाने को कौन देगा ।  
 हमें वे मत्स्यलियां तो सुधि आती हैं जो हम मिस्र में ५  
 सेंटमेंत खाया करते थे और वे खीरे और खरबूजे और  
 गन्दने और प्याज और लहसुन भी । पर अब हमारा जी ६  
 उम गया है यहां इस मान को छोड़ और कुछ देख नहीं  
 पड़ना । मान तो धनिये के समान था और उस का रंग ७  
 माती का सा था । लोग इधर उधर जा उसे बटोरके ८  
 चर्का में पीसते वा आगवली में कूटते थे फिर तसले में  
 मिक्कात और उस के फूलके बनाते थे और उस का स्वाद  
 तेल में बने हुए पूर का सा था । और रात को जब ९  
 छावनी में आस पड़ती तब उस के साथ मान भी पड़ता  
 था । जब घराने घराने के लोग अपने अपने डेरे के १०  
 द्वार पर गंते रहे तब यहोवा का कोप बहुत भड़का  
 और मूसा ने भी सुनकर बुरा माना । सो मूसा ने ११  
 यहोवा से कहा तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों  
 करता है और क्या कारण है कि मैं ने तेरी दृष्टि में  
 अनुग्रह नहीं पाया कि तू ने इन सारे लोगों का भार  
 मुझ पर डाला है । क्या ये सारे लोग मेरे ही कोख में १२  
 पड़े थे क्या मैं ही उन को जना कि तू मुझ से कहे कि

(१) अर्थात् जलन ।

- जैसे पिता दुधपिउवे बालक को अपनी गोद में उठाये हुए चलता है वैसे ही तू इन को उठाये हुए उस देश को ले जा जिस के देने की मैं ने उन के पितरों से किरिया खाई थी ।
- १३ मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूँ ये तो यह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे । मैं इन सब लोगों का भार अकेला नहीं संभाल सकता क्योंकि यह मेरे लिये बहुत भारी है । सो जो तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने चाहता हो तो तेरा इतना अनुग्रह मुझ पर हो कि मुझे मार डाल कि मुझे अपनी दुर्दशा देखनी न पड़े ॥
- १६ यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएली पुरनियों में से सत्तर ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिन को तू जानता हो कि वे प्रजा में के पुरनिये और उन के सरदार हैं और मिलापवाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों । तब मैं उतरके यहाँ तुझ से बातें करूँगा और जो आत्मा तुझ पर है उस में से लेकर उन में समवाजंगा सो वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाये रहेंगे और तुझे उस को अकेले उठाना न पड़ेगा । और लोगों से कह कल के लिये अपने को पवित्र कर रखो तब मांस खाने को मिलेगा क्योंकि तुम यहोवा के सुनते यह कहकर रोये हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा हम मिस्र ही में भले थे मां यहाँवा तुम को मांस खाने को देगा । तुम एक दिन वा दो वा पांच वा दस वा बीस दिन उसे न खाओगे । पर महीने भर उसे खाते रहोगे जब लों वह तुम्हारे नथनों से न निकले और तुम को घिनौना न लगे क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे बीच में है तुच्छ जाना और उस के साम्हने यह कह कर रोये हो कि हम मिस्र से काहे को निकले । मूसा ने कहा जिन लोगों के बीच मैं हूँ उन में से छः लाख तो प्यादे ही हैं और तू ने कहा है कि मांस मैं उन्हें इतना दूँगा कि वे महीने भर उसे खाते रहेंगे ।
- २२ क्या ये सब भेड़ बकरी गाय बैल उन के लिये मारे जाएँ कि उन को मांस मिले वा क्या समुद्र की सब मछलियाँ उन के लिये इकट्ठी की जाएँ कि उन को मांस मिले ॥
- २३ यहोवा ने मूसा से कहा क्या यहोवा की बांह छोटी हो गई है अब तू देखेगा कि मेरा वचन तेरे लिये पूरा होगा कि नहीं । तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उन के पुरनियों में से सत्तर पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किये ।
- ५ तब यहोवा ने बादल में उतरके मूसा से बातें कीं और जो आत्मा उस पर था उस में से लेकर उन सत्तर पुरनियों में समवा दिया और जब वह आत्मा उन पर ठहर गया तब वे नबूवत करने लगे पर फिर कभी न की ।

पर दो मनुष्य छावनी में रह गये वे जिन में से एक का नाम एलदाद और दूसरे का नाम मेदाद था उन पर भी आत्मा ठहरा वे लिखे हुआओं में के थे पर तंबू के पास न गये थे सो वे छावनी में नबूवत करने लगे । तब किसी जवान ने दौड़ के मूसा को बतलाया कि एलदाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं । तब नून का पुत्र यहोश जो मूसा का टहलुआ और उस के बड़े बड़े वीरों में से था उस ने मूसा से कहा हे मेरे स्वामी मूसा उन को बरज । मूसा ने उस से कहा क्या तू मेरे कारण जलता है आहा कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होने और यहोवा अपना आत्मा उन सभों में समवा देता । तब मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया । तब यहोवा की ओर से एक बयार उठकर समुद्र से बटेरें उड़ाके छावनी पर और उस के चारों ओर इतनी इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग लों और भूमि पर दो हाथ के लगभग ऊंचे पर रहीं । सो लोग उठकर उस दिन दिन भर रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटारते रहे जिस ने कम से कम बटोरा उस ने दस हांमेर बटोरा और उन्हां ने उन्हे छावनी के चारों ओर फैला दिया । मांस उन के मुंह ही में था और वे उसे चाबने न पाये थे कि यहाँवा का कोप उन पर बढ़क उठा और उस ने उन को बहुत बड़ी मार से मारा । और उस स्थान का नाम किब्रोथत्तावा पड़ा क्योंकि जिन लोगो ने तृष्णा की थी उन को वहाँ मिट्टी दी गई । फिर इस्राएली किब्रोथत्तावा से कूच करके हसेरोत में पहुँचे और वहीं रहे ॥

(मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण)

## १२. मूसा ने तो एक कृषी स्त्री को न्याह

लिया था सो मरियम और हारून उस की उस न्याहिता कृशिन के कारण उस की निन्दा करने लगे । उन्हीं ने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं क्या उस ने हम से भी बातें नहीं कीं । उन की यह बात यहोवा ने सुनी । मूसा तो पृथिवी भर के रहनेहारे सारे मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र था । सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा तुम तीनों मिलापवाले तंबू के पास निकल आओ तब वे तीनों निकल आये । तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया सो वे दोनों उस के पास निकल गये । तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के

(१) मूल में उस के चुने हुआओं में से । (२) अर्थात् तृष्णा की कवरे ।

द्वारा अपने को प्रगट करूंगा वा स्वप्न में उस से बात  
 ७ करूंगा । पर मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे  
 ८ सारे घराने में विश्वासयोग्य है । उस से मैं गुप्त रीति से  
 नहीं पर आम्हने साम्हने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता  
 हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है सो तुम  
 ९ मेरे दास मूसा की निन्दा करते क्यों न डरे । तब यहोवा  
 १० का कोप उन पर भड़का और वह चला गया । तब वह  
 बादल तंबू पर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम  
 के समान श्वेत हो गई और हारून ने मरियम की ओर  
 ११ दृष्टि की और देखा कि वह काँढ़िन हो गई है । तब  
 हारून मूसा से कहने लगा हे मेरे प्रभु हम दोनों ने जो  
 मूर्खता की बरन पाप भी किया यह पाप हम पर न  
 १२ लगने दे । उस को मरे हुए के समान न रहने दे जिस  
 की देह अपनी मा के पेट से निकलते ही अधगली हो ।  
 १३ सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी कि हे  
 १४ ईश्वर कृपाकर और उस को चंगा कर । यहोवा ने  
 मूसा से कहा यदि उस का पिता उस के भुंइ पर धूकता  
 तो क्या सात दिन लों उस को लाज न रहती सो वह  
 सात दिन लों छावनी से बाहर बन्द रहे उस के पीछे वह  
 १५ फिर भीतर आने पाए । सो मरियम सात दिन लों छावनी  
 से बाहर बन्द रही और जब लों मरियम फिर आने न  
 १६ पाई तब लों लोगों ने कूच न किया । उस के पीछे  
 उन्होंने ने हसेरोत से कूच करके पारान नाम जंगल में  
 अपने डेरे खड़े किये ॥

(इस्त्राएलियों के कनान देश में जाने से नाह करने  
 और इस के दंड पाने का वर्णन)

२ १३. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान  
 देश जिसे मैं इस्त्राएलियों का  
 देता हूँ उस का भेद लेने के लिये कितने पुरुषों को भेज  
 वे उन के पितरों के एक एक गोत्र का एक एक प्रधान  
 ३ पुरुष हों । यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे  
 पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब  
 ४ इस्त्राएलियों के प्रधान थे । उन के नाम ये हैं अर्थात् रुबेन  
 ५ गोत्र में से जककर का पुत्र शम्भू । शिमोन गोत्र में से  
 ६ दोगी का पुत्र शापात । यहूदा गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र  
 ७ कालेब । इस्त्राकार गोत्र में से योसेप का पुत्र यिगाल ।  
 ८, ९ एप्रैम गोत्र में से नून का पुत्र होशे । बिन्यामान गोत्र में  
 १० से रापू का पुत्र पलती । जबलून गोत्र में से सोदी का पुत्र  
 ११ गदाएल । यूसुफ वंशियों में के मनश्शे गोत्र में से सूसी का  
 १२ पुत्र गर्हा । दान गोत्र में से गमल्ली का पुत्र अम्मीएल ।  
 १३ १४ आशर गोत्र में से पीकाएल का पुत्र सतूर । नताली  
 १५ गोत्र में से वोप्सी का पुत्र नहबी । गाद गोत्र में से माकी

का पुत्र गूएल । जो पुरुष मूसा ने देश के भेद लेने का १६  
 भेजे उन के नाम ये ही हैं और नून के पुत्र हांशे का नाम  
 उस ने यहोशू रक्खा । उन को कनान देश के भेद लेने १७  
 को भेजते समय मूसा ने कहा इधर से अर्थात् दक्षिण  
 देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर, सारे देश १८  
 को देख लो कि कैसा है और उस में बसे हुए लोगों को  
 भी देखो कि वे बलवान हैं वा निर्बल धाड़े हैं वा बहुत ।  
 और जिस देश में वे बसे हुए हैं सो कैसा है अच्छा वा १९  
 बुरा और वे कैसी कैसी वास्तवों में बसे हुए हैं तंबू-  
 वालियों में कि गढ़वालियों में । और वह देश कैसा है २०  
 उपजाऊ वा बंजर और उस में वृद्ध हैं वा नहीं और तुम  
 हियाव बाधे चलो और उस देश की उपज मे से कुछ लेते  
 भी आना । वह समय पहिली पक्षी दाखों का था । सो २१  
 वे चल दिये और सीन नाम जंगल से ले रहोब लों जो  
 हमत के मार्ग में है सारे देश का भेद लिया । सो वे २२  
 दक्षिण देश हांकर चले और हेब्रोन लों गये वहां अहीमन  
 शेशी और तल्मै नाम अनाकवंशी रहते थे । हेब्रोन तो  
 मिस्र के सौअन से सात बरस पहिले बसाया गया था ।  
 तब वे एशकोल नाम नाले लों गये और वहां से एक २३  
 डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और दो मनुष्य उसे  
 एक लाठी पर लटकाये हुए उठा ले गये और वे अनारों  
 और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले गये । इस्त्राएली २४  
 जो वहां से वह दाखों का गुच्छा तोड़ ले आये इस  
 कारण उस स्थान का नाम एशकोल' नाला रक्खा  
 गया । चालीस दिन के पीछे वे उस देश का भेद लेकर २५  
 लौट आये, और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में २६  
 मूसा और हारून और इस्त्राएलियों को सारी मरडली के  
 पास पहुँचे और उन का और सारी मरडली को सदिशा  
 दिया और उस देश के फल उन का दिखाय । उन्होंने ने २७  
 मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तु ने  
 हम को भेजा था उस में हम गये उस में सचमुच दूध  
 और मधु की धाराएँ बहती हैं और उस की उपज में से  
 यही है । पर उस देश के निवासी बलवान हैं और उस २८  
 के नगर गढ़वाले और बहुत बड़े हैं और फिर हम ने वहां  
 अनाकवंशियों को भी देखा । दक्षिण देश में तो अमालेकी २९  
 बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हिर्ती यबूसी और  
 एमोरी रहते हैं और समुद्र के तीर तीर और यर्दन नदी  
 के तीर तीर कनानी बसे हुए हैं । पर कालेब ने मूसा के ३०  
 साम्हने प्रजा के लोग को चुप कराने की मनसा से  
 कहा हम अभी चढ़के उस देश का अपना कर ले क्योंकि  
 निःसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है । पर जो पुरुष ३१

(१) अर्थात् दाखों का गुच्छा ।

उस के संग गये थे उन्होंने ने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वे हम से बलवान् हैं ।  
 ३२ बरन उन्होंने ने इस्राएलियों के साम्हने उस देश की जिस का भेद उन्होंने लया था यह कहकर निन्दा भां को कि यह देश जिस का भेद लेने को हम गये थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है और जितने पुरुष हम ने उस में देखे सो सब के सब बड़े डील डाल के हैं ।  
 ३३ फिर हम ने वहां नपीलों को अर्थात् नपीली जातिवाले अनाकवंशियों को देखा और हम अपने लेखे में फंगा के समान ठहरे और ऐसे ही उन के भी लेखे में ॥

१४. तब सारी मण्डली चिल्ला उठी और रात को वे लोग रोते रहे । और सब इस्राएली मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगे और सारी मण्डली उन से कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते वा इस जंगल में मर जाते । और यहोवा हम को उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है हमारी स्त्रियाँ और बालबच्चे तो लूट में चले जाएंगे क्या मिस्र में लौट जाना हमारे लिये अच्छा न होगा । फिर वे आपस में कहने लगे आओ हम किसी को अपना प्रधान ठहराके मिस्र को लौट जाएं । सो मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मण्डली के साम्हने मुंह के बल गिरे । और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेनेहारों में से थे सो अपने अपने वस्त्र फाड़कर, इस्राएलियों की सारी मण्डली से कहने लगे जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आये हैं सो अत्यन्त उत्तम देश है । याद यहोवा हम से प्रसन्न हो तो हम को उस देश में जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उस को हमें देगा । इतना ही कि तुम यहोवा के बिरुद्ध दंगा न करो और न उस देश के लोगों से डरो क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे छाया उन के ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है उन से न डरो । तब सारी मण्डली उन पर पत्थरबाहू करने को बोल उठी । तब यहोवा का तेज मिलापवाले तंबू में सब इस्राएलियों को दिखाई दिया ॥  
 ११ तब यहोवा ने मूसा से कहा वे लोग कय लों मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यकर्म देखने पर  
 १२ भी कब लों मुझ पर विश्वास न करेंगे । मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उन के निज भाग उन को न दूंगा और तुझ से एक जाति उपजाऊंगा जो उन से बड़ी और बलवन्त  
 १३ होगी । मूसा ने यहोवा से कहा तब तो मिस्री जिन के बीच से तू अपना सामर्थ्य दिखाकर इन लोगों को निकाल  
 १४ ले आया है सो इसे सुनकर, इस देश के निवासियों

से कहेंगे । उन्होंने ने तो यह सुना होगा कि यहोवा उन लोगों के बीच रहता और प्रत्यक्ष दिखाई देता और तारा बादल उन के ऊपर ठहरा रहता है और दिन को बादल के खंभे में और रात को आग के खंभे में होकर उन के आग आगे चला करता है । सो याद तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है सो कहेंगी कि, यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उस ने उन्हें देने की किरिया खाई थी पहुंचा न सका इस कारण उस ने उन्हें जंगल में घात कर डाला है । सो अब प्रभु के सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि, यहोवा कोप करने में धीरजवन्त अति करुणामय और अधर्म और अपराध का क्षमा करनेहारा है वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पितरों के अधर्म का डण्ड उन के बेटों और पोतों और परपोतों को देनेहारा है । अब इन लोगों के अधर्म का अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से ले यहां लों क्षमा करता आया है वैसे ही इसे क्षमा कर । यहोवा ने कहा तेरी बात के अनुसार मैं क्षमा तो करता हूं । पर मेरे जीवन की सोह सचमुच सारी पृथिवी यहोवा की महिमा से पारपूर्ण हो जाएगी । उन सब लोगों ने जो मेरी महिमा और मिस्र और जंगल में मेरे किये हुए आश्चर्य कर्म देखने पर भी अब दस बेर मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानीं, इस लिये जिस देश के विषय मैं ने उन के पितरों से किरिया खाई उस को वे कभी देखने न पाएंगे अर्थात् जितनों ने मेरा तिरस्कार किया है उन में से कोई भी उसे देखने न पाएगा । पर इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और वह पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिया है मैं उस को उस देश में जिस में वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उस का वंश उस देश का अधिकारी होगा । अमालेका और कनानी लोग तराई में रहते हैं सो कल तुम घूम कर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ ॥

फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मण्डली मुझ पर कुड़कुड़ाती रहती है उस को मैं कब लों सहता रहूं इस्राएली जो मुझ पर कुड़कुड़ाते रहते हैं उन का यह कुड़कुड़ाना मैं ने तो सुना है । सो उन से कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सोह जो बात तुम ने मेरे सुनते कही है निःसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ करूंगा । तुम्हारी लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी और तुम सब में से बीस बरस की वा उस से अधिक अवस्था के जितने गिने गये थे

- ३० और मुझ पर कुड़कुड़ाये हैं, उन में से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिस के विषय मैं ने किरिया खाई १
- ३१ कि तुम को उस में बसाऊंगा । पर तुम्हारे बालबच्चे जिन के विषय तुम ने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे उन को मैं उस देश में पहुँचा दूँगा और व उस देश को
- ३२ जान लेंगे जिस को तुम ने तुच्छ जाना है । पर तुम लोगों की लोथें इस जंगल में पड़ी रहेंगी । और जब लौ तुम्हारी लोथें जंगल में न गल जाएं तब लौ अर्थात् चालीस बरस लौ तुम्हारे लड़कंबाले जंगल में तुम्हारे व्यभिचार
- ३४ का फल भांगते हुए चरवाही करते रहेंगे । जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात् चालीस दिन उन की गिनती के अनुसार दिन पीछे एक बरस अर्थात् चालीस बरस लौ तुम अपने अधर्म का दण्ड उठाये रहोगे और जान
- ३५ लोगे कि मेरा नटना क्या है । मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मण्डली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे और निःसन्देह ऐसा ही करूँगा
- ३६ भी । तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिये भेजा था और उन्हीं ने लौट कर उस देश की नामधराई करके सारी मण्डली को कुड़कुड़ाने के लिये उसकाया
- ३७ था, उस देश की वे नामधराई करनेहारे पुरुष यहोवा के मारने से उस के साम्हने मर गये । पर देश के भेद लेनेहारे पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र
- ३९ कालेब जीते रहे । तब मूसा ने ये बातें सब इस्राएलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे । और वे बिहान को सवेर उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम ने पाप किया है पर अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिस के विषय यहोवा ने
- ४१ वचन दिया था । तब मूसा ने कहा तुम यहोवा का आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो यह सुफल न होगा । यहोवा तुम्हारे बीच नहीं है सो मत चढ़ा नहीं तो शत्रुओं से
- ४३ हार जाओगे । वहाँ तुम्हारे आगे अमालेक और कनानी लोग हैं सो तुम तलवार से मार जाओगे तुम यहोवा को छोड़ कर फिर गये हो इस लिये यह तुम्हारे संग न रहेगा ।
- ४४ पर वे डिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गये पर यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा लावनी के बीच से न हटे । तब उस पहाड़ पर रहनेहारे अमालेकी और कनानी उतरके होमाँ लौ उन्हें घात करते गये ॥

(अन्नबालियों और अर्थाँ की विधि)

१५. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम

(१) मूल में हाथ उठाया ।

अपने निवास के देश में पहुँचो जो मैं तुम्हें देता हूँ, और यहोवा के लिये क्या होमबलि क्या मलबलि कोई हव्य चढ़ावो चाहे वह विशेष मन्त्र पूरी करने का हो चाहे स्वेच्छाबलि का हो चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो कि वह चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरियों में का हो जिस से यहोवा के लिये सुखदायक सुगंध हो, तब उस होमबलि वा मलबलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिये चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का दसवाँ अंश मैदा अन्नबाल करके चढ़ाना, और चौथाई हीन दाखमधु अर्घ करके देना । और भेड़े पीछे तिहाई हीन तेल से सना हुआ एपा का दो दसवाँ अंश मैदा अन्नबाल करके चढ़ाना, और उस का अर्घ यहोवा को सुखदायक सुगंध देनेहारा तिहाई हीन दाखमधु देना । और जब तू यहोवा को होमबलि वा किसी विशेष मन्त्र पूरी करने के लिये बलि वा मेलबलि करके बल्लड़ा चढ़ाए, तब बल्लड़े का चढ़ानेहारा उस के संग आध हीन तेल से सना हुआ एपा का तीन दसवाँ अंश मैदा अन्नबाल करके चढ़ाए । और उसका अर्घ आध हीन दाखमधु चढ़ाए वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देनेहारा हव्य होगा । एक एक बल्लड़े वा भेड़े वा भेड़ के बच्चे वा बकरा के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ाया जाए । तुम्हारे बलिपशुओं की जितनी गिनती हो उसी गिनती के अनुसार एक एक के साथ ऐसा किया करना । जितने देशी हो सो यहोवा का सुखदायक सुगंध देनेहारा हव्य चढ़ाने समय वे काम इसी रीति से किया करें । और यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो वा तुम्हारा किसी पीढ़ी में तुम्हारे बीच कोई रहनेहारा हो और वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देनेहारा हव्य चढ़ाना चाहे तो जैसे तुम कर्मों तैम हो वह भी करें । मण्डली के लिये अर्थात् तुम्हारे और तुम्हारे संग रहनेहारे परदेशी दोनों के लिये एक ही विधि हो तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह सदा की विधि ठहर कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लेखे उहरता हैं । तुम्हारे और तुम्हारे संग रहनेहारे परदेशियों के लिये एक ही व्यवस्था और एक ही नियम हो ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का मेरा १७, १८ यह वचन रूना कि जब तुम उस देश में पहुँचो जहाँ मैं तुम को लिये जाता हूँ, और उस देश की उपज का अन्न खाओ तब यहोवा के लिये उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो । अपने पहिले गूँधे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिये चढ़ाना जैसे तुम खलियान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे वैसे ही उस को भा उठाया करना । अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहिले गूँधे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना ॥

(अनजाने और जान भूक्त के किये हुए पापों का भेद)

- २२ फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें  
यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से  
२३ करो, अर्थात् जिन्हें यहोवा ने मूसा के द्वारा तुम को दिया  
जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा और आगे की  
२४ तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उस दिन से उसने जितनी आज्ञाएं  
दी हैं, तब यदि भूल से किया हुआ पाप मण्डली के  
बिन जाने हुआ हो तो सारी मण्डली यहोवा को सुख-  
दायक सुगंध देनेहारा होमबलि करके एक बछड़ा और  
२५ उस के संग नियम के अनुसार उस का अन्नबलि और अर्घ  
चढ़ाए और पापबलि करके एक बकरा चढ़ाए । तब याजक  
इसाएलियों की सारी मण्डली के लिये प्रायश्चित्त करे और  
उन की क्षमा की जायगी क्योंकि उन का पाप भूल से  
हुआ और उन्होंने ने अपनी भूल के लिये अपना चढ़ावा  
अर्थात् यहोवा के लिये हव्य और अपना पापबलि उस के  
२६ साम्हने चढ़ाया । सो इसाएलियों की सारी मण्डली का  
और उस के बीच रहनेवाले परदेशी का भी वह पाप  
क्षमा किया जाएगा क्योंकि वह सब लोगों के अनजान में  
२७ हुआ । फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह  
२८ बरस दिन की एक बकरी पापबलि करके चढ़ाए । और  
याजक भूल से पाप करनेहारे प्राणी के लिये यहोवा के  
साम्हने प्रायश्चित्त करे सो इस प्रायश्चित्त के कारण उस का  
२९ वह पाप क्षमा किया जाएगा । जो कोई भूल से कुछ करे  
चाहे वह इसाएलियों में देशी हो चाहे तुम्हारे बीच पर-  
देशी होकर रहता हो सब के लिये तुम्हारी एक ही  
३० व्यवस्था हो । पर क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी  
दिठाई से कुछ करे सो यहोवा का अनादर करनेहारा  
ठहरेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया  
३१ जाए । वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता और उस की  
आज्ञा का टालनेहारा है इस लिये वह प्राणी निश्चय  
नाश किया जाए उस का अधर्म उसी के लिये पड़ेगा ॥  
३२ जब इसाएली जंगल में रहते थे तब किसी विश्राम-  
३३ दिन में एक मनुष्य लकड़ी बीनता हुआ मिला । सो जिन  
को वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उस को मूसा और  
३४ हारून और सारी मण्डली के पास ले गये । उन्होंने ने उस  
को हवालात में रक्खा क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना  
३५ चाहिये सो प्रगट नहीं किया गया था । तब यहोवा ने  
मूसा से कहा वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए सारी  
मण्डली के लोग झावनी के बाहर उस पर पत्थरबाह  
३६ करें । सो सारी मण्डली के लोगों ने उस को झावनी से  
बाहर ले जाकर पत्थरबाह किया और वह मर गया जैसे  
कि यहावा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसाएलियों से ३७, ३८  
कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने बच्चों के कोर पर  
झालर लगाया करना और एक एक कोर की झालर पर  
एक नीला फीता लगाया करना । और वह तुम्हारे लिये ३९  
ऐसी झालर ठहरे कि जब जब उसे देखो तब तब यहोवा  
की सारी आज्ञाएं तुम को स्मरण आएँ जिस से उन को  
मानो और इस रीति तुम आगे को अपने अपने मन  
और अपनी अपनी दृष्टि के वश होके व्यभिचारिन की  
नाई ऐसे न फिरा करो जैसे अब लो फिरे आये हो, पर ४०  
तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके मानो और  
अपने परमेश्वर के लिये पवित्र बने रहो । मैं यहोवा तुम्हारा ४१  
परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया है,  
कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरे मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ ॥

(कोरह दातान और अबीराम का मचाया हुआ बलवा)

### १६. कोरह जो लेवी का परपाता कहात का

पोता और यिसहार का पुत्र था  
वह एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत  
के पुत्र आन इन तीनों रूबेनियों से मिलकर, मण्डली के २  
अर्द्धाई सी प्रधान जो सभासद आर नामी थे उन को संग  
लिया । और वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए ३  
और उन से कहने लगे तुम बस करो क्योंकि सारी मण्डली  
का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहावा उन के बीच  
रहता है सो तुम यहोवा की मण्डली से ऊंचे पदवाले ४  
क्यों बन बैठे हो । यह सुनकर मूसा अपने मुँह के बल  
गिरा । फिर उस ने कोरह और उस की सारी मण्डली से ५  
कहा बिहान को यहोवा जता देगा कि मेरा कौन है और  
पवित्र कौन है और उस को अपने समीप बुला लेगा  
जिस को वह आप चुन ले उसी को अपने समीप बुला भी  
लेगा । हे कोरह तू अपना सारा मण्डली भ्रमेत यह कर ६  
अर्थात् तुम धूपदान ठीक करो । और कल उन में आग ७  
रखकर यहोवा के साम्हने धूप देना तब जिस का यहावा  
चुन ले वही पवित्र ठहरेगा हे लेवीयो तुम ही बस करो ।  
फिर मूसा ने कोरह से कहा हे लेवीयो सुनो । क्या यह ८, ९  
तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इसाएल के परमेश्वर ने  
तुम को इसाएल की मण्डली से अलग करके अपने निवास  
की सेवकाई करने और मण्डली के साम्हने खड़े होकर उस  
की भी सेवा टहल करने को अपने समीप बुला लिया, और १०  
तुम्हें और तेरे सब लेवीय भाइयों को भी अपने समीप बुला  
लिया है फिर तुम याजक पद के भी खोजी हो । और इसी ११  
कारण तू ने अपनी सारी मण्डली को यहोवा के विरुद्ध  
इकट्ठी किया है । हारून क्या है कि तुम उस पर कुछकुछाते  
हो । तब मूसा ने एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम १२



को बुलवा भेजा और उन्हो ने कहा हम तेरे पास नहीं  
 १३ आने के । क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे  
 देश में जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इस  
 लिये निकाल लाया है कि हम जंगल में मार डाले फिर  
 १४ क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बन बैठा है । फिर तू हमें  
 ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं  
 ले आया और न हमें खेतों और दाख की बागियों के  
 अधिकारी किया क्या तू इन लोगों की आंखों में धूलि ?  
 १५ डालेगा हम नहीं आने के । तब मूसा का काप बहुत  
 भड़क उठा और उस ने यहोवा से कहा उन लोगों की  
 भेट की और दृष्टि न कर मैं ने तो उन से एक गदहा  
 नहीं लिया और न उन में से किसी की हानि की है ।  
 १६ तब मूसा ने कोरह से कहा कल तू अपनी सारी मण्डली  
 को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के साम्हने हाजिर  
 १७ होना । और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उन  
 में धूप देना फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत  
 अढ़ाई सौ होंगे यहोवा के साम्हने ले जाना विशेष करके  
 १८ तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना । सो उन्हों  
 ने अपना अपना धूपदान ले उन में आग रख उन पर  
 धूप दिया और मूसा और हारून के साथ मिलापवाले तंबू  
 १९ के द्वार पर खड़े हुए । और कोरह ने सारी मण्डली को उन  
 के विरुद्ध मिलापवाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया  
 तब यहोवा का तेज भारी मण्डली की दिखाई दिया ॥  
 २०, २१ तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस  
 मण्डली के बीच में से अलग हा जाओ कि मैं उन्हें पल  
 २२ भर म भस्म कर डाल । तब वे मुंह के बल गिरके कहने  
 लगे हे ईश्वर हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर  
 एक पुरुष पाप करे तो क्या तू सारी मण्डली पर भी कोप  
 २३, २४ करेगा । यहोवा ने मूसा से कहा, मण्डली के लोगों से  
 कह कि कोरह दातान और अबीराम के घरों के आसपास  
 २५ में हट जाओ । तब मूसा उठकर दातान और अबीराम  
 के पास गया और इस्राएलियों के पुरनिये उस के पीछे  
 २६ ही लिये । उस ने मण्डली के लोगों से कहा तुम उन दुष्ट  
 मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उन को काड़े  
 वस्तु न छूओ न हो कि तुम भी उन के सब पापों में  
 २७ फँस के मिट जाओ । सो वे कोरह दातान और अबीराम  
 के घरों के आसपास से हट गये पर दातान और अबीराम  
 निकलकर अपनी स्त्रियों बेटों और बालबच्चों समेत अपने  
 २८ अपने डेरों के द्वार पर खड़े हुए । तब मूसा ने कहा इस  
 से तुम जान लोगे कि मैं ने ये सब काम अपने मन से  
 २९ नहीं यहोवा ही की और से किये । यदि उन मनुष्यों की

(१) मूल में आले फोक ।

मृत्यु और सब मनुष्यों की सी हो और उन का दण्ड और  
 सब मनुष्यों का सा हो तब जाना कि मैं यहोवा का भेजा  
 नहीं हूँ । पर यदि यहोवा अपनी अपूर्व शक्ति प्रगट करे २०  
 और पृथिवी अपना मुंह पसारकर उन को और उन का  
 सब कुछ निगल ले और जीते जी अधोलोक में जा पड़े  
 तो समझ लो कि उन मनुष्यों ने यहोवा का तिरस्कार  
 किया है । वह ये सब बातें कह ही चुका था कि उन २१  
 लोगों के पांव तले की भूमि फट गई । और पृथिवी ने २२  
 मुंह पसारकर उन को और उन के घरों और कोरह के  
 यहां के सब मनुष्यों और उन का सारी संपत्ति को भी निगल  
 लिया । वे और जितने उन के यहां के थे सो जीते ही २३  
 अधोलोक में जा पड़े और पृथिवी ने उन को ढांप लिया  
 और वे मण्डली के बीच में से नाश हुए । और जितने २४  
 इस्राएली उन के चारों ओर थे सो उन का चिह्नाना सुन  
 यह कहते हुए भाग गये कि कहीं पृथिवी हम को भी न  
 निगल ले । तब यहोवा के पास से आग निकली और २५  
 उन अढ़ाई सौ धूप चढ़ानेहारों को भस्म कर डाला ॥

तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र २६, २७  
 एलाजार से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा  
 ले और आग का उधर छितरा दे क्योंकि वे पवित्र हैं ।  
 जिन्हो ने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है उन २८  
 के धूपदानों के पत्तर पीटकर वेदी के मढ़ने को बनाए  
 जाए क्योंकि वे उन्हें यहोवा के साम्हने ले आये तो ये  
 इस से वे पवित्र ठहरे हैं इस रीति वे इस्राएलियों के  
 लिये चिन्हाना हो जायेंगे । सो एलाजार याजक ने उन २९  
 पीतल के धूपदानों को जिन में उन जले हुए मनुष्यों ने  
 धूप चढ़ाया था लेकर उनके पत्तर पीटकर वेदी के मढ़ने  
 के लिये बनवा दिये, कि इस्राएलियों को इस बात का ४०  
 स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न हो  
 यहोवा के साम्हने धूप चढ़ाने का समीप न जाए न हो  
 कि वह भा कोरह और उस की मण्डली के समान नाश  
 हो जाए जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उस को आशा  
 दी थी ॥

दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मण्डली यह कहकर ४१  
 मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा  
 को तुम ने मार डाला है । और तब मण्डली के लोग मूसा ४२  
 और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए तब उन्हों ने मिलापवाले  
 तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा  
 लिया और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है । तब मूसा और ४३  
 हारून मिलापवाले तंबू के साम्हने गये । तब यहोवा ने मूसा ४४  
 से कहा तुम उस मण्डली के लोगों के बीच से उठ जाओ

(१) मूल में यहोवा दृष्टि सिरजे ।

४५ कि मैं उन्हें पल भर में मरम कर डालूँ, तब वे मुंह के  
 ४६ बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा धूपदान को ले  
 उस में वेदी पर से आग रख उस पर धूप दे मरडली  
 के पास फुरती से जाकर उस के लिये प्रार्थश्चत्त कर  
 क्योंकि यहोवा का क्रोध भड़का है मरी फैलने लगी  
 ४७ है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर  
 मरडली के बीच में दाड़ा गया और यह देखकर कि  
 लोगों में मरी फैलने लगी है उस ने धूप धरके लोगों के  
 ४८ लिये प्रार्थश्चत्त किया। वह तो मरे और जीते हुआ के  
 ४९ बीच खड़ा हुआ सो मरी थम गई। और जो कारह के  
 संग भागी होकर मर गये थे उन्हें छोड़ जो लोग इस  
 ५० मरी से मर गये सो चौदह हजार सात सौ थे। जब मरी  
 थम गई तब हारून मिलापवाले तंबू के द्वार पर मूसा  
 के पास लौट गया ॥

(याजकों और लेवीयों को मर्यादा और कर्तव्य कर्म)

२ १७. तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों  
 से बात करके उन के पितरों के  
 घरानों के अनुसार उन के सब प्रधानों के पास से एक  
 एक छड़ी ले और उन बारह छड़ियों में से एक एक पर  
 ३ एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। और लेवीयों  
 की छड़ी पर हारून का नाम लिख क्योंकि इस्राएलियों के  
 पितरों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक  
 ४ छड़ी हागी। और उन छड़ियों को मिलापवाले तंबू में  
 साक्षीपत्र के आग जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं  
 ५ रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उस की छड़ी  
 कलियाएगी और इस्राएली जो तुम पर कुड़कुड़ाते हैं  
 ६ वह कुड़कुड़ाना में अपने पर से दूर करूंगा। सो मूसा ने  
 इस्राएलियों से यह बात कही और उन के सब प्रधानों  
 ने अपने अपने लिये अपने अपने पितरों के घरानों  
 के अनुसार एक एक छड़ी दी सो बारह छड़ी हुई और  
 ७ उन की छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों  
 को मूसा ने साक्षीपत्र के तंबू में यहोवा के साम्हने रख  
 ८ दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षीपत्र के तंबू में गया तो  
 क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के  
 लिये थी कलियाई अर्थात् उस में कलिया लगी और  
 ९ फूल भी फूले और बादाम पके हैं। सो मूसा उन सब  
 छड़ियों को यहोवा के साम्हने से निकाल सब इस्राएलियों  
 के पास ले गया और उन्हें ने अपनी अपनी छड़ी  
 १० पाहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा  
 हारून की छड़ी को साक्षीपत्र के साम्हने फिर धर कि यह  
 उन दंगीतों के लिए चिन्हाना होने को रखी रहे कि तू

(१) मूल में यहोवा के समुख से क्रोध निकला है।

उन का कुड़कुड़ाना मुझ पर से दूर करके आगे को गेक  
 रखे, न हो कि वे मर जाएं। यहोवा की इस आज्ञा के ११  
 अनुसार ही मूसा ने किया ॥

तब इस्राएली मूसा से कहने लगे देख हमारा १२  
 प्राण निकल गया हम नाश हुए हम सब के सब नाश  
 हुए। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता सो १३  
 मारा जाता है क्या हम सब मर के अन्त हो जाएंगे ॥

१८. फिर यहोवा ने हारून से कहा पवित्रस्थान

में के अधर्म का भार तू ही अपने  
 पुत्रों और अपने पिता के घराने समेत उठाना और अपने  
 याजककर्म के अधर्म का भार भी तू ही अपने पुत्रों  
 समेत उठाना। और लेवी का गोत्र अर्थात् तेरे मूलपुरुष २  
 के गोत्रवाले जो तेरे भाई हैं उन को भी अपने साथ  
 समीप ले आ और वे तुझ से मिल जाएं और तेरी सेवा  
 टहल किया करें पर साक्षीपत्र के तंबू के साम्हने तू और  
 तेरे पुत्र आया करें। जो तुझे सौंपा गया है उस की और ३  
 सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करें पर पवित्रस्थान के  
 पात्रों के और वेदी के समीप न आए न हो कि वे और  
 तुम लोग भी मर जाओ। सो वे तुझ से मिल जाएं और ४  
 मिलापवाले तंबू में की सारी सेवकाई की वस्तुओं की  
 रक्षा किया करें पर जो तेरे कुल का न हो, सो तुम  
 लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्रस्थान और ५  
 वेदी की रखवाली तुम ही किया करो जिस से इस्राएलियों  
 पर फिर क्रोध न भड़के। पर मैं ने आप तुम्हारे लेवीय ६  
 भाइयों को इस्राएलियों के बीच से ले लिया है और वे  
 मिलापवाले तंबू की सेवा करने के लिये तुम को और यहोवा  
 को भी दिये गये हैं। पर वेदी की और बीचवाले पर्दे के ७  
 भीतर की यातों की सेवकाई के लिये तू और तेरे पुत्र  
 अपने याजकपद की रक्षा करना सो तुम ही सेवा किया  
 करना क्योंकि मैं तुम्हें याजकपद की सेवकाई दान करता  
 हूं और जो तेरे कुल का न हो सो यदि समीप आए  
 तो मार डाला जाए ॥

फिर यहोवा ने हारून से कहा सुन मैं आप तुझ को ८  
 उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूं अर्थात् इस्राएलियों की पवित्र  
 की हुई वस्तुएं जितनी हों उन्हें मैं तेरा अभिषेकवाला भाग  
 जानकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे  
 देता हूं। जो परमपवित्र वस्तुएं आग में होम न की जाएंगी ९  
 सो तेरी ठहरें अर्थात् इस्राएलियों के सब चढ़ावों में से उन  
 के सब अन्नबलि सब पापबलि और सब दोषबलि जो  
 वे मुझ को दें सो तेरे और तेरे पुत्रों के लिये परमपवित्र  
 ठहरें। उन को परमपवित्र वस्तु जानकर खाया करना १०  
 उन को हर एक पुरुष खा सकता है वे तेरे लिये पवित्र

- ११ हैं । फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरें अर्थात् जितनी भेंट  
इसाएलियों के दिलाने के लिये दें उन को मैं तुम्हें और तेरे बेटे  
बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ तेरे घराने में  
१२ जितने शुद्ध हों सो उन्हें खा सकेंगे । फिर उत्तम से उत्तम  
टटका तेल और उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और  
गोहूँ अर्थात् इन में की जो पहिली उपज वे यहोवा को  
१३ दें सो मैं तुम्हें देता हूँ । उन के देश की सब प्रकार  
की पहिली पहिली उपज जो वे यहोवा के लिये ले आएँ  
सो तेरी ठहरें तेरे घराने में जितने शुद्ध हों सो उन्हें  
१४ खा सकेंगे । इस्राएलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए  
१५ वह भी तेरा ठहरे । सब प्राणियों में से जितने अपनी  
अग्नी मा के पहिलौठे हों जिन्हें लोग यहोवा के लिये  
चाड़ाएँ चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहिलौठे हों सो  
१६ को दाम लेकर छोड़ देना । और जिन्हें लुड़ाना हो जय  
वे महीने भर के हों तब उन के लिये अपने ठहराये हुए  
मोल के अनुसार अर्थात् पवित्रस्थान के बांस गेरा के  
१७ शेकेल के लेखे से पाच शेकेल लेके उन्हें छोड़ना । पर  
गाय वा मेड़ी वा बकरी के पहिलौठे को न छोड़ना वे  
तो पवित्र हैं उन के लोहू को वेदी पर छिड़क देना और  
उन की चरबी को दब्य करके जलाना जिस से यहोवा  
१८ के लिये सुखदायक सुगन्ध हो । पर उन का मांस तेरा  
ठहरे खिलाई हुई छाती और दाहनी जांघ का नाई वह  
१९ भी तेरा ठहरे । सो पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली  
यहोवा को दें उन सभी को मैं तुम्हें और तेरे बेटे बेटिया  
को सदा का हक करके दे देता हूँ यह तो तेरे और तेरे वंश  
के लिये यहोवा की सदा का लौनवाली वाचा ठहरी है ।  
२० फिर यहोवा ने हारून से कहा इस्राएलियों के देश में तेरा  
कोई भाग न होगा और न उन के बीच तेरा अंश  
होगा उन के बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ ॥  
२१ फिर मिलापवाले तंबू की जो सेवा लेवाय करते  
हैं उस के बदले मैं उन को इस्राएलियों का सब दशमांश  
२२ उन का निज भाग कर देता हूँ । और आगे को इस्राएली  
मिलापवाले तंबू के समीप न आएँ न हो कि उन को  
२३ पाप लगे और वे मर जाएँ । पर लेवीय मिलापवाले  
तंबू की सेवा किया करें और उन के अधर्म का भार वं  
ही उठाया करें वह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि  
ठहरे और इस्राएलियों के बीच उन का कोई निज भाग  
२४ न हो । क्योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा को उठाई  
हुई भेंट करके देंगे उस में लेवीयों का निज भाग करके

देता हूँ इस कारण मैं ने उन के विषय कहा है कि  
इस्राएलियों के बीच कोई भाग उन को न मिले ॥

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवीयों से कह २५, २६  
कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो  
जिसे यहोवा तुम का तुम्हारा निज भाग करके उन से  
दिलाता है तब तब उस में से यहोवा के लिये एक उठाई हुई  
भेंट करके दशमांश का दशमांश देना । और तुम्हारी उठाई हुई  
२७ भेंट तुम्हारे हित के लिये ऐसी गिनी जाएगी जैसा  
खालहान में का अन्न वा रसकंड में का दाखरस गिना जाता  
है । इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो  
२८ इस्राएलियों की ओर से लगे यहोवा को एक उठाई हुई  
भेंट देना और यहोवा का यह उठाई हुई भेंट हारून याजक  
को दिया करना । जितने दान तुम पाओ उन में से हर  
२९ एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है सो उसे  
यहोवा के लिये उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना । इस  
३० लिये तू लेवीयों से कह कि जब तुम उस में का उत्तम  
से उत्तम भाग उठाकर दो तब यह तुम्हारे लिये खलिहान  
में के अन्न और रसकंड के रस के तुल्य गिना जाएगा ।  
और उस को तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा  
३१ सकते हो क्योंकि मिलापवाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे  
उस का यह बदला ठहरा है । और जब तुम उस का  
३२ उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब उस के कारण तुम  
को पाप न लगेगा पर इस्राएलियों की पवित्र की हुई  
वस्तुओं को अर्पित न करना न ही कि तुम मर जाओ ॥

(लौन आदि का भ्रंशजन्य अशुद्धता के निवारण का उपाय)

१९. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से  
कहा, व्यवस्था की जिस विधि की

आज्ञा यहोवा देता है सो यह है कि तू इस्राएलिया  
से कह कि मरे पास एक लाल निर्दोष कलौर ले आओ  
जिस में कोई भी दोष न हो और जिस पर जूआ कभी  
न रखी गया हो । तब उसे एलाजार याजक को दो  
३ और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उस  
को उस के साम्हने बलि करे । तब एलाजार याजक  
४ अपनी अंगुली से उस का कुछ लोहू लेकर मिलापवाले  
तंबू के साम्हने की ओर सान बाएँ छिड़क दे । तब कोई  
५ उस कलौर को खाल मांस लोहू और गोबर समेत उस  
के साम्हने जलाए । और याजक देवदारु की लकड़ी  
६ जपा और लाही रंग का कपड़ा लेकर उस आग में  
जिस में कलौर जलती हो डाल दे । तब वह अपने  
७ वस्त्र धोए और स्नान करे इस के पीछे छावन में तो  
आए पर सांभ लो अशुद्ध रहे । और जो मनुष्य  
८ उस को जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और

१ स्नान करे और सांभ लो अशुद्ध रहे । फिर कोई शुद्ध पुरुष उस कलोर की राख बटोरकर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े और वह राख इस्राएलियों की मण्डली के लिये अशुद्धता से छुड़ानेहारे जल के लिये रखी रहे वह तो पापबलि होगी । और जो मनुष्य कलोर की राख बटोरे से अपने बख्त धोए और सांभ लो अशुद्ध रहे । और यह इस्राएलियों के लिये और उन के बीच रहनेहारे परदेशियों के लिये भी सदा की विधि ठहरे । जो किसी मनुष्य की लोथ हुए से सात दिन लो अशुद्ध रहे । ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से अपने को पाप छुड़ाकर पावन करे और सातवें दिन शुद्ध ठहरे पर यदि वह तीसरे दिन अपने को पाप छुड़ाकर पावन न करे तो सातवें दिन शुद्ध न ठहरेगा । जो कोई किसी मनुष्य की लोथ छूकर अपने का पाप छुड़ाकर पावन न करे वह यहोवा के निवासस्थान का अशुद्ध करनेहारा ठहरेगा और वह प्राणी इस्राएल में से नाश किया जाए अशुद्धता से छुड़ानेहारा जल जो उस पर न छिड़का गया इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा उस की अशुद्धता उस में बनी रहेगी । यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है कि जितने उस डेरे में रहे वा उस में जाए सो सब सात दिन लो अशुद्ध रहें । और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा न हो सो अशुद्ध ठहरे । और जो कोई मैदान में तलवार के मारे हुए का वा अपनी मृत्यु से मर हुए का वा मनुष्य की हड्डी को वा किसी कबर को छूए सो सात दिन लो अशुद्ध रहे । अशुद्ध मनुष्य के लिये जलाये हुए पापबलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए । तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा ले उस जल में योग के जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उस में हों उन पर छिड़के और हड्डी के वा मारे हुए के वा अपनी मृत्यु से मरे हुए के वा कबर के छूनेहारे पर छिड़के । वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और सातवें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के और सातवें दिन वह उस का पाप छुड़ाकर पावन करे तब वह अपने बख्तों को धोकर और जल में स्नान करके सांभ लो शुद्ध ठहरे । और जो कोई अशुद्ध हाकर अपने को पाप छुड़ा कर पावन न कराए वह प्राणी जो यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करनेहारा ठहरेगा इस कारण मण्डली के बीच में से नाश किया जाए अशुद्धता से छुड़ानेहारा जल जो उस पर न छिड़का गया इस से वह अशुद्ध ठहरेगा । और यह उन के लिये मर की विधि ठहरे । जो अशुद्धता से छुड़ानेहारा जल छिड़के सो अपने बख्तों को धोए और जिस जन से

अशुद्धता से छुड़ानेहारा जल छू जाए वह भी सांभ लो अशुद्ध रहे । और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए सो भी अशुद्ध ठहरे और जो प्राणी उस वस्तु को छुए सो भी सांभ लो अशुद्ध रहे ॥

(मूसा और हारून का पाप और उस पाप का दंड)

## २०. पहिले महीने में सारी इस्राएली मण्डली

के लोग सीन नाम जंगल में आ गये और कादेश में रहने लगे और वहां मरियम मर गई और वही उस को मिट्टी दी गई । वहां मण्डली के लोगों के लिये पानी न मिला सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए । और लोग यह कह कर मूसा से भगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय मर गये होते जब हमारे भाई यहोवा के साम्हने मर गये । और तुम यहोवा की मण्डली को इस जंगल में क्यों ले आये हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं । और तुम ने हम को मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है यहां तो बांज वा अजीर वा दाखलता वा अनार कुछ नहीं है बरन पीने को कुछ पानी भी नहीं है । तब मूसा और हारून मण्डली के साम्हने से मिलापवाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उन को दिखाई दिया । तब यहोवा ने मूसा से कहा, लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मण्डली को इकट्ठा करके उन के देखते उस ढांग से बातें कर तब वह अपना जल देगी इस प्रकार से तू ढांग में से उन के लिये जल निकाल कर मण्डली के लोगों और उन के पशुओं को पिला । यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उस के साम्हने से लाठी को ले लिया । और मूसा और हारून ने मण्डली को उस ढांग के साम्हने इकट्ठा किया तब मूसा ने उन से कहा हे दंगैतो सुनो क्या हम को इस ढांग में से तुम्हारे लिये जल निकालना होगा । तब मूसा ने हाथ उठा कर लाठी ढांग पर दो बार मारी और उस में से बहुत पानी फूट निकला और मण्डली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे । पर मूसा और हारून से यहोवा ने कहा तुम ने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया इसलिये तुम इस मण्डली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है । उस सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया और वह उन के बीच पवित्र ठहराया गया ॥

(एदोमियों का इस्राएलियों को अपने पास होकर चलने से बरजना)

फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इस्राएल यों कहता है कि हम पर जो

१५ जो क्रोश पड़े हैं सो तू जानता होगा । अर्थात् यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गये थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया । पर जब हम ने यहोवा की दोहाड़ दी तब उम ने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है सो अब हम कादेश नगर में हैं जो तेरे सिवाने ही पर है । सो हमें अपने देश में होकर जाने दे हम किसी खेत वा दाख की बारी से होकर न चलेंगे और कुआँ का पानी न पीएँगे सड़क सड़क होकर चले जाएँगे और जब लौं तेरे देश से बाहर न हो जाएँ तब लौं न दहिने न बाएँ मुड़ेंगे । पर एदोमियों ने उस के पास कहला भेजा कि तू मेरे देश होकर मत जानहीं तो मैं तलवार लिये हुए तेरा साम्हना करने को निकलूँगा । इस्राएलियों ने उस के पास फिर कहला भेजा हम सड़क ही सड़क चलेंगे और यदि मैं और मेरे पशु तेरा पानी पीएँ तो उस का दाम दूंगा मुझ को और कुछ नहीं केवल पाँव पाँव निकल जाने दे । उस ने कहा तू आने न पाएगा और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उस का साम्हना करने को निकल आया । यों एदोम ने इस्राएल को अपने देश के भीतर हाँकर जान देने से नाह किया सो इस्राएल उस की ओर से मुड़ गया ॥

(हारून की मृत्यु)

२२ तब इस्राएलियों की सारी मण्डली कादेश से कूच करके होर नाम पहाड़ के पास आ गई । और एदोम देश के सिवाने पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नाम सोते पर मेरा कहा छोड़कर मुझ से बलवा किया इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैं ने इस्राएलियों को दिया है । सो तू हारून और उस के पुत्र एलाजार का होर पहाड़ पर ले चल । और हारून के वस्त्र उतार के उस के पुत्र एलाजार को पहना तब हारून वहीं मरके अपने लोगों में जा मिलेगा । यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मण्डली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गये । जब मूसा ने हारून के वस्त्र उतारके उस के पुत्र एलाजार को पहनाये और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया तब मूसा और एलाजार पहाड़ पर से उतर आये । और जब इस्राएल की सारी मण्डली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है तब इस्राएल के सब घराने के लोग उस के लिये तीस दिन लौं रोते रह ॥

(कनानी राजा पर जय)

२९. तब अराद का कनानी राजा जो दक्खिन देश में रहता था यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिये आये थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं इस्राएल से लड़ा और उन में से कितनों को बंधुआ कर लिया । तब इस्राएल ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सबमुच उन लोगों को मेरे बश में कर दे तो मैं उन के नगरों को सत्यानाश करूँगा । इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उन के बश में कर दिया सो उन्होंने ने उन के नगरों समेत उन को भी सत्यानाश किया इस से उस स्थान का नाम होर्मा<sup>१</sup> रक्खा गया ॥

(पीतल का बना हुआ साँप)

फिर उन्होंने ने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया इसलिये कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएँ । और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत अधीर हो गया । सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा तुम लोग हम को मिस्र से जंगल में मरने के लिये क्यों ले आये हो यहाँ न तो रोटी है और न पानी और हमारा जी इस निकम्मी रांटी से मिचलाता है । सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले<sup>२</sup> साँप भेजे जो उन को डंसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गये । तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे हम ने पाप किया है कि हम ने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं यहोवा से प्रार्थना कर कि वह साँपों को हम से दूर करे । तब मूसा ने उन के लिये प्रार्थना की । यहोवा ने मूसा से कहा एक तेज विषवाले<sup>२</sup> साँप की प्रतिमा बनवाकर स्वभे पर लटका तब जो साँप से डंसा हुआ उस को देख ले सो जीता बचेगा । सो मूसा ने पीतल का एक साँप बनवाकर स्वभे पर लटकाया तब साँप के डंसे हुए जिस जिस ने उस पीतल के साँप की ओर निहारा सो सो जीता बच गया । फिर इस्राएलियों ने कूच करके अराबत में डेरे डाले । और अराबत में कूच करके अराबत नाम डीहों में डेर डाले जो पूरब की ओर मोआब के साम्हने के जंगल में हैं । वहा से कूच करके उन्होंने ने जेरेद नाम नाले में डेरे डाले । वहाँ से कूच करके उन्होंने ने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकली है उस की परती ओर डेर खड़े किये क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश का सिवाना ठहरी है । इस

(१) अर्थात् सत्यानाश । (२) मूल में जलते हुए ।

- कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में यों लिखा है कि  
 सुपा में बाहेब  
 और अर्नोन के नाले  
 १५ और उन नालों की ढाल  
 जिस की ढाल आर नाम वासस्थान की ओर है  
 और जो मोआब के सिवाने पर है<sup>१</sup> ।  
 १६ फिर वहां से कूच करके वे बेर लों गये वहां वही  
 कूआ है जिस के विषय यहोवा ने मूसा से कहा था कि  
 उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा ॥  
 १७ उस समय इस्राएल ने यह गीत गाया कि  
 हे कूप उबल आ उस कूप के विषय गाओ  
 १८ जिस को हाकिमों ने खोदा  
 और इस्राएल के रईसों ने  
 अपने सोंटों और लाठियों में खोद लिया ॥  
 १९ फिर व जंगल से मत्ताना लों और मत्ताना से  
 २० नहलीएल लों और नहलीएल से बामोत लों और  
 बामोत से कूच करके उस तराई लों जो मोआब के  
 मैदान में है और पिसगा के उस सिरे लों भी जो  
 यशमोन की ओर भुका है पहुंच गये ॥  
 (सीहोन और आग नाम राजाओं का पराजय और उन का  
 देश इस्राएलियों के बश में आना)  
 २१ तब इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के  
 २२ पास दूतों से यह कहला भेजा कि, हमें अपने देश में  
 होकर चलने दे हम मुड़कर किसी खेत वा दाख की  
 बारी में तो न जाएंगे न किसी कूप का पानी पीएंगे और  
 २३ जब लों तेरे देश से बाहर न हों जाएं तब लों सड़क ही  
 से चले जाएंगे । तौ भी सीहोन ने इस्राएल को अपने देश  
 से होकर चलने न दिया बरन अपनी सारी सेना को  
 इकट्ठा करके इस्राएल का साम्हना करने को जंगल में  
 २४ निकल आया और यहस को आकर उन से लड़ा । तब  
 इस्राएलियों ने उस को तलवार से मार लिया और अर्नोन  
 २५ से यम्बोक नदी लों जो अम्मोनियों का सिवाना था उस  
 के देश के अधिकारी हो गये । अम्मोनियों का सिवाना तौ  
 हड़ था । सो इस्राएल ने एमोरियों के सब नगरों को ले  
 २६ लिया और उन में अर्थात् देशबोन और उस के आसपास के  
 नगरों में रहने लगे । देशबोन एमोरियों के राजा सीहोन  
 का नगर था उस ने मोआब के अगले राजा से लड़के  
 २७ उस का सारा देश अर्नोन लों उस के हाथ से छीन लिया  
 था । इस कारण गूढ बात के कहनेहारे कहते हैं कि  
 देशबोन में आओ  
 सीहोन का नगर बसे और हड़ किया जाए

(१) मूल में उठगी है ।

- क्योंकि देशबोन से आग  
 अर्थात् सीहोन के नगर से लौ निकली  
 जिस से मुआब देश का आर नगर  
 और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए ॥  
 हे मोआब तुझ पर हाथ  
 २९ कमोश देवता की प्रजा नाश हुई  
 उस ने अपने बेटों को भगोड़  
 और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की  
 बंधुई कर दिया ॥  
 हम ने उन्हें गिरा दिया है देशबोन दीबोन लों भी ३०  
 नाश हुआ है  
 और हम ने नोपह लों  
 मेदबा लों भी उजाड़ दिया है ॥  
 सो इस्राएल एमोरियों के देश में रहने लगा । तब ३१, ३२  
 मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्हीं  
 ने उस के गांवों का ले लिया और वहां के एमोरियों को  
 उस देश से निकाल दिया । तब वे मुड़के बासान के माग ३३  
 से जाने लगे और बासान के राजा आंग ने उन का  
 साम्हना किया अर्थात् लड़ने को अपनी सारी सेना समेत  
 एद्रई में निकल आया । तब यहोवा ने मूसा से कहा उस ३४  
 से मत डर क्योंकि मैं उस को सारी सेना और देश समेत  
 तेरे हाथ में कर देता हूँ और जैसा तू ने एमोरियों के राजा  
 देशबोनवासी सीहोन से किया है वैसा ही उस से भी करना ।  
 सो उन्हीं ने उस को और उस के पुत्रों और सारी प्रजा को ३५  
 यहाँ लों मारा कि उस का कोई भी बचा न रहा और वे  
 २२ उस के देश के अधिकारी हो गये । तब इस्राए- १  
 लियों ने कूच करके यरीहो के पास की यर्दन  
 नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किये ॥  
 (बिलाम का चरित्र)  
 और सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल २  
 ने एमोरियों से क्या क्या किया है । सो मोआब यह ३  
 जानकर कि इस्राएली बहुत हैं उन लोगों से निपट डर गया  
 बरन मोआब इस्राएलियों के कारण अति व्याकुल हुआ ।  
 सो मोआबियों ने मिथानी पुरनियों से कहा अब वह दल ४  
 हमारे चारों ओर के सब लोगों का ऐसे चट कर जाएगा  
 जैसे बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है और  
 उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा  
 था । और इस ने पतोर नगर को जो महानद के तीर पर ५  
 बोर के पुत्र बिलाम के जातिभाइयों की भूमि में है उसी  
 बिलाम के पास दूत भेजे जो यह कह कर उसे बुला लाए  
 कि मुन एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि  
 उन से ठंक गई है और अब वे मेरे साम्हने उठरे हैं ।

६ सो आ और उन लोगों को मेरे निमित्त खाप दे, क्योंकि वे मुझ से अधिक बलवन्त हैं क्या जाने मुझे इतनी शक्ति हो कि हम उन को जीत सकें और मैं उन्हें अपने देश से बरबस निकाल सकूँ यह तो मैं ने जान लिया है कि जिस को तू आशोर्वाद दे सो धन्य होता है

७ और जिस को तू खाप दे वह स्थापित होता है । सो मोआबी और मिथानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुँचकर बालाक की बातें कह सुनाई । उस ने उन से कहा आज रात को यहां टिको और जो बात यहोवा मुझ से कहे उसी के अनुसार मैं तुम को उत्तर दूंगा सो मोआब के हाकिम

९ बिलाम के यहां ठहर गये । तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहां ये पुरुष कौन हैं । बिलाम ने परमेश्वर से कहा सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा

११ बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि, सुन जो दल मिस्र से निकल आया है उस से भूमि दंप गई है सो आकर मेरे लिये उन्हें कोस क्या जाने मैं उन से लड़

१२ कर उनको बरबस निकाल सकूँ । परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इन के संग मत जा उन लोगों का खाप मत दे

१३ क्योंकि वे आशिष के भागी हो चुके हैं । भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा अपने देश चले जाओ क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने नहीं देता ।

१४ तब मोआबी हाकिम चल दिये और बालाक के पास जाकर कहा बिलाम ने हमारे साथ आने को नाह किया है ।

१५ इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहिलों से प्रतिष्ठित आर गिनती में भी अधिक थे । उन्होंने ने बिलाम के पास आकर कहा सिप्पोर का पुत्र बालाक यों कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण नाह न कर ।

१७ क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझ से कह सोई मैं करूंगा सो आ और उन लोगों का मेरे निमित्त कोस । बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरके मुझे दे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कहे से कुछ घट बढ़ न कर सकूंगा । सो अब तुम लोग आज रात को यहां टिके रहो और मैं जान लूँ कि यहोवा

१९ मुझ से और क्या कहेगा । रात में परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर कहा वे पुरुष जो तुम्हें बुलाने आये हैं सो उठकर उन के संग जा पर जो बात मैं तुम्हें से कहूंगा

२१ उसी के अनुसार करना । तब बिलाम भोर को उठ अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिम के संग चला ।

२२ उस के चलने से परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उस का विरोध करने को मार्ग में खड़ा

हुआ । वह अपनी गदही पर चढ़ा हुआ जा रहा था और उस के संग उस के दो सेवक थे । और गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिये हुए मार्ग में खड़ा देख पड़ा, तब गदही मार्ग से हटकर खेत में गई सो बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर चले । तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में जिस के दोनों ओर बारी की भीत थी खड़ा हुआ । यहोवा के दूत के देखकर गदही भीत से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव भीत से दब गया सो उस ने उस को फिर मारा । तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकेत स्थान पर खड़ा हुआ जहां न तो दहिनी ओर दहने की जगह थी और न बाई । वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिये ही बैठ गई इस से बिलाम का कोप भड़क उठा और उस ने गदही को लाठी मारी । तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी मैं ने तेरा क्या किया है कि तू ने मुझे तीन बार मारा । बिलाम ने गदही से कहा यह कि तू ने मुझ से नटखटी की सो यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुम्हें अभी मार डालता । गदही ने बिलाम से कहा क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज लौ चढ़ता आया है क्या मैं तुम्हें से कभी ऐसा करती थी वह बोला नहीं । तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोलीं और उस को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिये हुए मार्ग में खड़ा देख पड़ा तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरके दसड़वत् की । यहोवा के दूत ने उस से कहा तू ने अपनी गदही को तीन बार क्यों मारा सुन तेरा विरोध करने का मैं ही आया हूँ इसलिये कि तू मेरे साम्हने उलटी चाल चलता है । आर यह गदही मुझे देखकर मेरे साम्हने से तीन बार हट गई जो वह मेरे साम्हने से हट न जाती ता निःसंदेह मैं अब लौ तुम्हें तो मार डालता पर उस को जीती छोड़ देता । तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा मैं ने पाप किया है मैं जानता न था कि तू मेरा साम्हना करने का मार्ग में खड़ा है सो यदि अब तुम्हें बुरा लगता हो तो मैं लौट जाऊंगा । यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा इन पुरुषों के संग जा तो भी केवल वही बात कहना जा मैं तुम्हें से कहूंगा सो बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला । यह सुनकर कि बिलाम आ गया बालाक उस की अनुवानी करने को मोआब के उस नगर लौ जो उस देश के अनेकवाले सिवाने पर है गया । बालाक ने बिलाम से कहा क्या मैं ने तुम्हें यथ से बुला न भेजा था फिर तू क्यों मेरे पास न आया था क्या मैं सचमुच तेरी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता ।

३८ बिलाम ने बालाक से कहा देख मैं तेरे पास आया हूँ  
पर अब क्या मुझे कुछ भी कहने की शक्ति है जो बात  
३९ परमेश्वर मुझे सिखाएगा वही बात मैं कहूँगा । तब  
बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्त्थूसोत  
४० तक आये । और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को  
बलि किया और बिलाम और उस के साथ के हाकिमों के  
४१ पास भेजा । बिहान को बालाक बिलाम को बालू के ऊँचे  
स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहाँ से उस को सब  
१ २३. इस्राएली लोग देख पड़े । तब बिलाम ने  
बालाक से कहा यहाँ पर मेरे लिये सात  
वेदियाँ बनवा और इसी स्थान पर सात बछड़े और सात भेड़ें  
२ तैयार कर । तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार  
किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर एक एक  
३ वेदी पर एक एक बछड़ा और एक एक भेड़ा चढ़ाया । फिर  
बिलाम ने बालाक से कहा तू अपने होमबलि के पास  
खड़ा रह और मैं जाऊँगा क्या जानिये यहाँवा मुझ से भेंट  
करने का आए और जाँ कुछ वह मुझे दिखाए सो मैं तुम्ह  
४ का बताऊँगा सो वह एक मुखड़े पहाड़ पर गया । और  
परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उस से कहा मैं ने  
सात वेदियाँ तैयार कीं और एक एक वेदी पर एक एक  
५ बछड़ा और एक एक भेड़ा चढ़ाया है । यहोवा ने बिलाम  
का एक बात सिखाकर कहा बालाक के पास लौटकर यों  
६ कहना । सो वह उस के पास लौट गया और वह सारे  
मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा  
७ था । तब बिलाम अपनी गूढ़ बात उठाकर कहने लगा  
बालाक ने मुझे आराम से अथात् मोआब के राजा  
ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा ।  
आ मेरे लिये याकूब का साप दे  
आ इस्राएल को धमका दे ॥  
८ पर जिन्हें ईश्वर ने नहीं कासा उन्हें मैं कैसे क्रोसूँ  
आर जिन्हें यहाँवा ने धमका नहीं दी उन्हें मैं  
धमका कैसे दूँ ॥  
९ चट्टानों का चाटी पर से वे मुझे देख पड़ते हैं  
पहाड़ियाँ पर से मैं उन का देखता हूँ  
वह ऐसी जाति है जो अकला बसी रहेगी  
और अन्यजातियों से अलग गिनती जायेगी ॥  
१० याकूब के धूलि के किनारे कौन गिन सके वा  
इस्राएल की चौपाई की गिनती कौन ले सके  
मेरी मृत्यु धार्मिकों की सी  
और मेरा अन्त उन्हीं का सा हो ॥  
११ तब बालाक ने बिलाम से कहा तू ने मुझ से क्या  
किया है मैं ने तो तुझे अपने शत्रुआ के कासने को

बुलवाया था पर तू ने उन्हें आशिष ही आशिष दी है ।  
उस ने कहा जो बात यहोवा मुझे सिखाए क्या मुझे १२  
सावधानी से उसी को बोलना न चाहिये । बालाक ने उस से १३  
कहा मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहाँ से वे तुझे देख  
पड़ेंगे तू उन सबों को तो नहीं केवल बाहरवालों को देख  
सकेगा वहाँ से उन्हें मेरे लिए कोसना । सो वह उस का १४  
सोपीम नाम मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहाँ  
सात वेदियाँ बनवाकर एक एक पर एक एक बछड़ा और १५  
एक एक भेड़ा चढ़ाया । तब बिलाम ने बालाक से कहा  
अपने होमबलि के पास यहीं खड़ा रह और मैं उधर जाकर  
यहोवा से भेंट करूँ । और यहोवा ने बिलाम से भेंट कर १६  
उस का एक बात सिखाकर कहा कि बालाक के पास  
लौटकर यों कहना । सो वह उस के पास गया और १७  
मोआबी हाकिमों समेत बालाक अपने होमबलि के पास  
खड़ा था और बालाक ने पूछा कि यहोवा ने क्या कहा  
है । बिलाम अपनी गूढ़ बात उठाकर कहने लगा १८  
ह बालाक मन लगाकर सुन  
ह सप्पोर के पुत्र मेरी बात पर कान लगा ॥  
ईश्वर तो मनुष्य नहीं है कि भूट वाले १९  
और न वह आदमी है कि पछुताए  
क्या वह कहकर न करे,  
क्या वह वचन देकर पूरा न करे ॥  
देख आशीर्वाद ही देने का मैं न आज्ञा पाई २०  
बरन यह आशीष दे चुका है आर मैं उसे नहीं पलट  
सकता ॥  
उस ने याकूब में अनर्थ नहीं पाया २१  
और न इस्राएल में अन्याय देखा है  
उस का परमेश्वर यहोवा उस के संग है  
और उस में राजा की सी ललकार हाँती है ॥  
उस का मस में से ईश्वर ही निकाले लिये आता है २२  
वह तो बनैले बैल का सा बल रखता है ॥  
निश्चय कोई मनु याकूब पर नहीं चल सकता २३  
और न इस्राएल पर भावी कहना  
समय पर तो याकूब और इस्राएल के विषय यह  
कहा जाएगा  
कि ईश्वर ने क्या ही काम किया है ॥  
सुन वह दल सिहिनी का नाइ उठेगा २४  
और सिह की नाइ खड़ा होगा  
वह जब ला अहर को न खाए  
और मार हुआ के लोहू का न पीए  
तब ला फिर न लेटेगा ॥

(१) मूल में उठकर ।



- २५ तब बालाक ने बिलाम से कहा उन को न तो  
 २६ कोसना और न आशिष देना । बिलाम ने बालाक से कहा  
 क्या मैं ने तुम्ह से यह बात न कही थी कि जो कुछ  
 २७ यहोवा मुझ से करे वहां मुझे करना पड़ेगा । बालाक ने  
 बिलाम से कहा चल मैं तुम्ह का एक और स्थान पर ले  
 चलता हूँ क्या जानिये कि परमेश्वर की इच्छा हो कि  
 २८ तु वहां से उन्हें मेरे लिये कासे । सो बालाक बिलाम को  
 पार के सिंघे ले गया जो यशीमोन देश की ओर भुका  
 २९ है । और बिलाम ने बालाक से कहा यहां पर मेरे लिये  
 सात वेदियां बनवा और यहां सात बछुड़े और सात मेढ़े  
 ३० तैयार कर । बिलाम के कह के अनुसार करके बालाक  
 ने एक एक वंदी पर एक एक बछुड़ा और एक एक मट्टा  
 १ चढ़ाया । यह देखकर कि यहाया इस्राएल  
 २ को आशिष हो दिलाना चाहता है बिलाम  
 पहिले को नाह शकुन देखने को न गया पर अपना मुंह  
 ३ जंगल की ओर किया । जब बिलाम ने आंखें उठाई तब  
 इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके टटके हुए देखा और  
 ४ परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा । तब वह अपनी गूढ़  
 बात उठाकर कहने लगा कि  
 बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है  
 जिस पुरुष की आंख मून्दी थी उसी का यह वाणी है ॥  
 ५ ईश्वर के वचनो का मुननेहारा  
 जो गिरके खुली हुई आंखों से  
 सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है  
 उसी की यह वाणी है कि  
 ६ हे याकूब तैरे डेरे  
 और हे इस्राएल तैरे निवासस्थान क्या ही मनभावने हैं ॥  
 वे तो नाला की नाई  
 और नदी के तीर पर की बारियों के समान फैले हुए हैं  
 जैसे कि यहोवा के लगाये हुए अगर क वृक्ष और  
 जल के निकट के देवदारु ॥  
 ७ उस के डालों से जल उमरुडा करेगा  
 और उस का बीज बहुतेरे जलभरे खेतों में पड़ेगा  
 और उस का राजा अगारा से महान होगा  
 और उस का राज्य बढ़ता जाएगा ॥  
 ८ उस को मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिये आता है  
 वह तो बनैले बैल का सा बल रखता है  
 जाति जाति के लोग जो उस के ब्राही हैं उन को  
 वह खा जाएगा  
 और उन की हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा  
 और अपने तीरों से उन को बेधेगा ।  
 ९ वह दबका वह सिंह वा सिंहनी की नाह लोट गया है

- उस को कौन छेड़े  
 जा कोई तुम्हें आशीर्वाद दे सो आशिष पाए  
 और जा कोई तुम्हें स्राप दे सो स्रापित हो  
 तब बालाक का काप बिलाम पर भड़क उठा और १०  
 उस ने हाथ पर हाथ पटककर बिलाम से कहा मैं ने तुम्हें  
 अपने शत्रुआ के कोसने का बुलवाया पर तू ने तीन  
 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है । सो अब ११  
 अपने स्थान पर भाग जा मैं ने कहा तो था तेरी बड़ी  
 प्रतिष्ठा करूंगा पर अब यहांवा ने तुम्हें प्रतिष्ठा पाने से  
 रोक रक्खा है । बिलाम ने बालाक से कहा जो दूत तू १२  
 ने मेरे पास भेजा ये क्या मैं ने उन से भी न कहा था  
 कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदा से भरके १३  
 मुझे दे तौभी मैं यहांवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन  
 से न ता भला कर सकता हूँ न बुरा जो यहांवा कहे  
 वही मैं कहूंगा । सो अब सुन मैं अपने लांगों के पास १४  
 जाता वा हूँ पर पहिले मैं तुम्हें चिता देता हूँ कि  
 अन्त के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे ।  
 फिर वह अपनी गूढ़ बात उठाकर कहने लगा कि १५  
 बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है  
 जिस पुरुष की आंखें मून्दी थीं उसी की यह वाणी है ।  
 ईश्वर के वचनो का मुननेहारा १६  
 और परमप्रधान के ज्ञान का जाननेहारा  
 जो गिरके खुली हुई आंखों से  
 सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है  
 उसी की यह वाणी है कि  
 मैं उस को देखूंगा तो सही पर अभी नहीं १७  
 मैं उस को निहारूंगा तो सही पर समीप हांके नहीं  
 याकूब में से एक तारा उदय होगा  
 और इस्राएल में से एक दण्ड उठेगा  
 जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा  
 और सब दंगैता का गिरा देगा ।  
 तब एदोम और संडर भी जो उस के शत्रु हैं १८  
 सो उस के वश में पड़ेंगे  
 और तब लो इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा ।  
 और याकूब में से एक प्रभुता करेगा १९  
 और नगर में से बचे हुआ को भी नाश करेगा ॥  
 फिर उस ने अमालेक पर हांघ करके अपनी गूढ़ २०  
 बात उठाकर कहा  
 अमालेक अन्यजातियों में श्रेष्ठ तो था  
 पर उस का अन्त बिनाश ही होगा ॥  
 फिर उस ने केनियों पर हांघ करके अपनी गूढ़ बात २१  
 उठाकर कहा

- तेरा निवासस्थान अति दृढ़ तो है  
और तेरा बसेरा ढाग में तो है ।
- २२ तौभी केन उजड़ जाएगा ।  
और अन्त में अश्रु तुझे बंधुआई में ले जाएगा ॥
- २३ फिर उस ने अपनी गूढ़ बात उठकर कहा हाय जब  
ईश्वर यह करेगा तब कौन जीता बचेगा ॥
- २४ बरन किस्तियों के पास से जहाजवाले आकर अश्रु  
को और एबेर को भी दुःख देंगे और अन्त में उस  
का भी विनाश हो जाएगा ॥
- २५ तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट  
गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया ॥  
(इसाएलियों का वेश्यागमन और उस का दण्ड)

## २५ इस्राएली शिस्तीम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों

- २ के संग कुकर्म करने लगे । और जब उन स्त्रियों ने उन  
लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया तब वे  
लाग खाकर उन के देवताओं को दण्डवत् करने लगे ।
- ३ मो इस्राएल पोर के बाल देवता के संग मिल गया तब  
४ यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़का । और यहोवा ने  
मूसा से कहा प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा  
के लिये धूप में लटका दे जिस से मेरा भड़का हुआ  
५ कोप इस्राएल पर से दूर हो जाए । सो मूसा ने इस्राएली  
न्यायियों से कहा तुम्हारे जो जो अधीन लोग पोर के  
बाल के संग मिल गये हैं उन्हें घात करा ॥
- ६ और देखो एक इस्राएली पुरुष मूसा और मिलाप  
वाले तंबू के द्वार के आगे रोते हुए इस्राएलियों की सारी  
मण्डली के देखते एक मिद्यानी स्त्री को अपने भाइयों के  
७ पास ले आया है । इसे देखकर एलाजार का पुत्र पीन-  
हास जो हारून याजक का पोता था उस ने मण्डली में  
८ से उठ हाथ में बरछी ली, और उस इस्राएली पुरुष के  
छेरे में जाने पर वह भी गया और उस पुरुष और उस  
स्त्री दोनों के पेट में बर्छी बेध दी इस पर इस्राएलियों  
९ में जो मरी फैल गई थी सो थम गई । और मरी से  
चौबीस हजार मनुष्य मर गये थे ॥
- १०, ११ तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का  
पोता एलाजार का पुत्र पीनहास जिसे इस्राएलियों के बीच  
मेरी सी जलन उठी उस ने मेरी जलजलाहट को उन पर  
से यहां तक दूर किया है कि मैं ने जल कर उन का अन्त  
१२ नहीं कर डाला । इसलिये कह कि मैं उस से शांति की  
१३ वाचा वाधता हूँ, और वह उस के लिये और उस के  
पीछे उस के वंश के लिये सदा के याजकपद की वाचा

(१) मूल में मैं उसे अपना शांतिवाली वाचा देता हूँ ।

होगी क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिये जलन उठी  
और उम ने इस्राएलियों के लिये प्रायश्चित्त किया । जो १४  
इस्राएली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया उस का  
नाम जिघ्री था वह सालू का पुत्र और शिमोनियों में से अपने  
पितरों के घराने का प्रधान था । और जो मिद्यानी स्त्री मारी १५  
गई उस का नाम कोजबी था वह सुर की बेटी थी जो  
मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था ॥  
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों को १६, १७  
सताना और उन्हें मारना । क्योंकि पोर के विषय और १८  
कोजबी के विषय व तुम को छुल करके सताते हैं ।  
कोजबी तो एक मिद्यानी प्रधान की बेटी और मिद्यानियों  
की जाति बहिन थी और मरी के दिन में पोर के मामले  
में मारी गई ॥

(इस्राएलियों की गिनती दूसरी बार लिये जाने का वर्णन)

## २६. फिर यहोवा ने मूसा और एलाजार नाम

हारून याजक के पुत्र से कहा,  
इस्राएलियों की सारी मण्डली में जितने बीस बरस के वा २  
उस से अधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के बीच  
युद्ध करने के योग्य हैं उन के पितरों के घरानों के अनुसार  
उन सभों की गिनती करो । मो मूसा और एलाजार ३  
याजक ने यरीहो के पास यर्दन नदी के तीर पर मोआब  
के अराबा में उन से सम्झाके कहा, बीस बरस के और ४  
उस से अधिक अवस्था के लोगों की गिनती ला । जैसे कि  
यहोवा ने मूसा और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकल  
आने के समय आज्ञा दी थी ॥

रूबेन ज इस्राएल का जेठा था उस के ये पुत्र थे ५  
अथात् हनोक जिस से हनोकिया का कुल पल्लू जिस से  
पल्लूहियों का कुल, हेसान जिस से हेसनियों का कुल ६  
और कर्मी जिस से कर्मियों का कुल चला । रूबेनवाले ७  
कुल ये ही थे और इन में से जो गिने गये सो तैतालीस  
हजार सात सौ तीस पुरुष ठहरें । और पल्लू का पुत्र ८  
एलीआब था । और एलीआब के पुत्र नमूएल दातान ९  
और अबीराम ये ये वेही दातान और अबीराम हैं जो  
सभासद थे और जिस समय कोरह की मण्डली यहांवा से  
भगड़ी उस समय उस मण्डली में मिल कर वे भी मूसा  
और हारून से भगड़े । और जब उन अढ़ाई सौ मनुष्यों १०  
के आग में भस्म हो जाने से वह मण्डली मिट गई उसी  
समय पृथिवी ने मुंह खोल कर कोरह समेत इन का भी  
निगल लिया सो वे एक दृष्टान्त ठहर गये । पर कोरह ११  
के पुत्र तो न मरे थे ॥

शिमोन के पुत्र जिन से उन के कुल निकले सो ये १२  
थे अथात् नमूएल जिस से नमूएलियों का कुल थामीन

- जिम से यामीनियों का कुल याकीन जिस से याकीनियों  
 १३ का कुल, जेरह जिस से जेरहियों का कुल और शाऊल  
 १४ जिस से शाऊलियों का कुल चला । शिमोनवाले कुल ये  
 ही थे इन में से बाईस हजार दो सौ गिने गये ॥
- १५ गाद के पुत्र जिन से उन के कुल निकले सो ये थे  
 अर्थात् सपौन जिस से सपौनियों का कुल हाग्गी जिस से  
 हाग्गीयों का कुल शूनी जिस से शूनीयों का कुल,  
 १६ ओजनी जिम से ओजनीयों का कुल एरी जिस से एरीयों  
 १७ का कुल, अरोद जिस से अरोदियों का कुल और अरेली  
 १८ जिस से अरेलीयों का कुल चला । गाद के वंश के  
 कुल ये ही थे इन में से साढ़े चालीस हजार पुरुष  
 गिने गये ॥
- १९ यहूदा के एर और अनान नाम पुत्र तो हुए पर व  
 २० कनान देश में मर गये । सो यहूदा के जिन पुत्रों से उन  
 के कुल निकले व ये थे अर्थात् शेला जिम से शेलियों का  
 कुल पेरेस जिस से पेरेसियों का कुल और जेरह जिम से  
 २१ जेरहियों का कुल चला । और पेरेस के पुत्र ये थे अर्थात्  
 हस्त्रोन जिस से हस्त्रोनियों का कुल और हामूल जिस से  
 २२ हामूलियों का कुल चला । यहूदियों के कुल ये ही थे इन  
 में से साढ़े छिहत्तर हजार पुरुष गिने गये ॥
- २३ इस्ताकार के पुत्र जिन से उन के कुल निकले सो ये  
 थे अर्थात् तोला जिस से तोलियों का कुल पुब्बा जिस से  
 २४ पुब्बियों का कुल, याशूब जिस से याशूबियों का कुल  
 २५ और शिमोन जिस से शिमोनियों का कुल चला । इस्ता-  
 कारियों के कुल ये ही थे इन में से चौंसठ हजार तीन  
 सौ पुरुष गिने गये ॥
- २६ जबूलून के पुत्र जिन से उन के कुल निकले सो ये  
 थे अर्थात् सेरेद जिस से सेरेदियों का कुल एलोन जिस से  
 एलोनियों का कुल और यहलेल जिस से यहलेलियों का  
 २७ कुल चला । जबूलूनियों के कुल ये ही थे इन में से साढ़े  
 साठ हजार पुरुष गिने गये ॥
- २८ यूसुफ के पुत्र जिन से उन के कुल निकले सो मनश्शे  
 २९ और एप्रैम थे । मनश्शे के पुत्र ये थे अर्थात् माकीर  
 जिस से माकीरियों का कुल चला और माकीर से गिलाद  
 भी जन्मा और गिलाद से गिलादियों का कुल चला ।  
 ३० गिलाद के तो पुत्र ये थे अर्थात् ईएजेर जिस से ईएजेरियों  
 ३१ का कुल हेलेक जिस से हेलेकियों का कुल, अस्सीएल  
 जिस से अस्सीएलियों का कुल शेकेम जिस से शेकेमियों  
 ३२ का कुल, शमीदा जिस से शमीदियों का कुल और हेपेर  
 ३३ जिस से हेपेरियों का कुल चला । और हेपेर के पुत्र सलोफाद  
 के बेटे नहीं केवल बेटियां हुईं इन बेटियों के नाम  
 ३४ महला नोआ हागला मल्का और तिसा हैं । मनश्शे-

वाले कुल ये ही थे और इन में से जो गिने गये सो बाबन  
 हजार सात सौ पुरुष ठहर ॥

एप्रैम के पुत्र जिन से उन के कुल निकले सो ये थे ३५  
 अर्थात् शूतेलह जिस से शूतेलाहियों का कुल बेकेर जिस से  
 बेकेरियों का कुल और तहन जिस से तहनियों की कुल  
 चला । और शूतेलह के यह पुत्र हुआ अर्थात् एरान जिम ३६  
 से एरानियों का कुल चला । एप्रैमियों के कुल ये ही थे ३७  
 इन में से साढ़े बत्तीस हजार पुरुष गिने गये । अपने  
 कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग ये ही थे ॥

बिन्यामीन के पुत्र जिन से उन के कुल निकले सो ३८  
 ये थे अर्थात् बेला जिस से बेलियों का कुल अशबेल  
 जिस से अशबेलियों का कुल अहीराम जिस से अही  
 रामियों का कुल, शूपाम जिस से शूपामियों का कुल ३९  
 और हूपाम जिस से हूपामियों का कुल चला । और बेला ४०  
 के पुत्र अद और नामान थे सो अद में तो अदियों का  
 कुल और नामान से नामानियों का कुल चला । अपने ४१  
 कुलों के अनुसार बिन्यामीनी ये ही थे और इन में से जो  
 गिने गये सो पैतालीस हजार छः सौ पुरुष ठहरें ॥

दान के पुत्र जिन से उन का कुल निकला ये थे ४२  
 अर्थात् शूहाम जिम से शूहामियों का कुल चला दानवाला  
 कुल यही था । शूहामियों में से जो गिने गये उन के ४३  
 कुल में चौंसठ हजार चार सौ पुरुष ठहरें ॥

आशेर के पुत्र जिन से उन के कुल निकले सो ये थे ४४  
 अर्थात् यिम्ना जिस में यिम्नियों का कुल यिथी जिस से  
 यिथियों का कुल और बरीआ जिस से बरीआयों का कुल  
 चला । फिर बरीआ के ये पुत्र हुए अर्थात् हेबेर जिस से ४५  
 हेबेरियों का कुल और मल्कीएल जिस से मल्कीएलियों  
 का कुल चला । और आशेर की बेटों का नाम सेरह है । ४६  
 आशेरियों के कुल ये ही थे इन में से तिर्पन हजार चार ४७  
 सौ पुरुष गिने गये ॥

नसाली के पुत्र जिन से उन के कुल निकले सो ये ४८  
 थे अर्थात् यहसेल जिस से यहसेलियों का कुल गूनी जिस  
 से गूनियों का कुल, येसेर जिस से येसेरियों का कुल और ४९  
 शिल्लेम जिम से शिल्लेमियों का कुल चला । अपने कुलों  
 के अनुसार नसाली के कुल ये ही थे और इन में से जो  
 गिने गये सो पैतालीस हजार चार सौ पुरुष ॥

सब इस्त्राएलियों में से जो गिने गये थे सो ये ही थे ५१  
 अर्थात् छः लाख एक हजार सात सौ तीस पुरुष ठहरें ॥

फिर यहोवा ने मुसा से कहा, इन्हीं के बीच ५२, ५३  
 इन की गिनती के अनुसार देश बंटकर इन का भाग हो  
 जाए । अर्थात् आधकवालों को आधक भाग और कम ५४  
 वालों को कम भाग देना एक एक गात्र का उस का

भाग उस के गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए ।  
 ५५ तैमी देश चिट्टी डालकर बांटा जाए इस्राएलियों के पितरों  
 के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे  
 ५६ अपना अपना भाग पाएं । चाहे बहुतों का भाग हो चाहे  
 थोड़ों का हो जो जो भाग बंट जाएं सो चिट्टी डालकर  
 बांटे जाएं ॥

५७ फिर लेवीयों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने  
 गये सो ये हैं अर्थात् गैशोनियों से निकला हुआ गैशोनियों  
 का कुल कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल और  
 ५८ मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल । लेवीयों के  
 कुल ये हैं अर्थात् लिब्नीयों का हेब्रानियों का महलीयों  
 का मूशीयों का और कारहियों का कुल और कहात से  
 ५९ अम्माम जन्मा । और अम्माम की स्त्री का नाम येकेबेद  
 है वह लेवी के वंश की थी जो लेवी के वंश में मर  
 देश में जन्मी थी और वह अम्माम के जन्माये हारून  
 और मूसा और उन की बहिन मरियम को भी जनी ।  
 ६० और हारून के नादाब अबीहू एलाजार और ईतामार  
 ६१ जन्मे । नादाब और अबीहू तो उस समय मर गये थे जब  
 ६२ वे यहोवा के साम्हने उपरी आग ले गये थे । सब लेवीयों  
 में से जो गिने गये अर्थात् जितने पुरुष एक महीने के वा  
 उस से अधिक अवस्था के थे सो तेईस हजार थे वे  
 इस्राएलियों के बीच इस लिये न गिने गये कि उन को  
 उन के बीच देश का कोई भाग न दिया गया ॥

६३ मूसा और एलाजार याजक जन्हों ने मोआब के  
 अराबा में यरीहो के पास की यर्दन नदी के तीर पर  
 इस्राएलियों को गिन लिया उन के गिने हुए लोग इतने  
 ६४ ही ठहरे । पर जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून  
 याजक ने सीनै के जंगल में गिना था उन में से एक भी  
 ६५ पुरुष इस समय के गिने हुआ में न रहा । क्योंकि यहोवा  
 ने उन के विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर  
 जाएंगे सो यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून ने पुत्र  
 यहोश को छोड़ उन में से एक पुरुष भी बचा न रहा ॥

(सलोफाद की बेटियों की गिनती)

२७. तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश  
 के कुलों में से सलोफाद जो हेपेर

का पुत्र गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का  
 परपोता था उस की बेटियां जिन के नाम महला नोश्वा  
 १ होम्ला मिल्का और तीसा हैं सो पास आईं । और वे  
 मूसा और एलाजार याजक और प्रधानों और सारी मरडली  
 के साम्हने मिलापवाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने  
 २ लगीं, हमारा पिता जंगल में मर गया पर वह उस मरडली

में का न था जो कारह की मरडली के संग होकर यहोवा  
 के बरक इकट्ठी हुई थी वह अपने ही पाप के कारण  
 मरा और उस के कोई पुत्र न हुआ । सो हमारे पिता का ४  
 नाम उस के कुल में से पुत्र न होने के कारण क्या मिट  
 जाए हमारे चचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग  
 करके दे । उन की यह गिनती मूसा ने यहोवा को सुनाई । ५  
 यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक ६, ७  
 कहती हैं सो तू उन के चचाओं के बीच उन को भी  
 अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे अर्थात् उन के  
 पिता का भाग उन के हाथ सौंप दे । और इस्राएलियों से ८  
 यह कह कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मरे तो उस का भाग  
 उस की बेटी के हाथ सौंपना । और यदि उस के कोई ९  
 बेटे भी न हो तो उस का भाग उसके भाइयों को देना ।  
 और यदि उस के भाई भी न हो तो उस का भाग उस १०  
 के चचाओं को देना । और यदि उस के चचा भी न हों  
 तो उस के कुल में से उस का जो कुटुम्बी सब से समीप ११  
 हो उस को उस का भाग देना कि वह उस का अधिकारी  
 हो । इस्राएलियों के लिये यह न्याय की विधि ठहरे जैसे  
 कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी ॥

(यहोश के मूसा के स्थान पर ठहराये जाने का बर्णन)

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत १२  
 पर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैं ने इस्राएलियों  
 को दिया है । और जब तू उस को देख लेगा तब १३  
 अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा  
 मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मरडली १४  
 के भगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझ से बलवा  
 किया और मैं से तो के पास उन की दृष्टि में पवित्र  
 नहीं ठहराया । (यह मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम  
 जंगल में के कादेश में है) । मूसा ने यहोवा से कहा, १५  
 यहांवा जो सारे प्राणियों के आत्माका का परमेश्वर है १६  
 सो इस मरडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को ठहरा  
 दे, जो उन के साम्हने आया जाया करे और उन का १७  
 निकालने पैठानेहारा हो जिस से यहोवा की मरडली  
 बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न हो । यहोवा १८  
 ने मूसा से कहा तू नून के पुत्र यहोश को लेकर उस पर  
 हाथ टेक वह तो ऐसा पुरुष है जिस में मेरा आत्मा बसा  
 है । और उस को एलाजार याजक के और सारी मरडली १९  
 के साम्हने खड़ा करके उन के साम्हने उसे आज्ञा दे । और  
 अपनी महिमा में से कुछ उसे दे इसलिये कि इस्राएलियों २०  
 की सारी मरडली उस की माना करे । और वह २१  
 एलाजार याजक के साम्हने खड़ा हुआ करे और एलाजार

उस के लिये यहोवा ने ऊरीम नाम न्याय के द्वारा पृच्छा करे और वह इस्राएलिया की सारी मण्डली समेत उसके कह से जाया करे और उसी के कह से लोट आया भी २२ करे । यहांवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोश का ले एलाजार याजक और सारी मण्डली के साम्हने २३ खड़ा करके, उस पर हाथ टेके और उस का आज्ञा दो जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था ॥

(नियत नियत समयों के विशेष विशेष बलिदान)

२ **२८. फिर** यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा

अर्थात् मुझे सुखदायक सुगंध देनेहारा मेरा हव्यरूपी भोजन तुम लोग मेरे लिये उस के नियत समयों पर ३ चढ़ाने का स्मरण रखना । और तू उन से कह कि जो जो तुम्हें यहोवा के लिये चढ़ाना हांगा सो ये हैं अर्थात् नित्य होमबलि के लिये दिन दिन एक एक बरस के दो ४ निर्दोष भेड़ों के बच्चे । एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूलि के समय चढ़ाना । और भेड़ के बच्चे पीछे एक चौथाई हीन कूटके निकाले हुए तेल से सने हुए ६ एपा के दसवां अंश मैदे का अन्नबलि चढ़ाना । यह नित्य होमबलि है जो सीने पर्वत पर यहोवा का सुखदायक ७ सुगंधवाला हव्य होने के लिये ठहराया गया । और उस का अर्घ एक एक भेड़ के बच्चे के संग एक चौथाई हीन ही मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिये पवित्रस्थान ८ में देना । और दूसरे बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना अन्नबलि और अर्घ समेत भोर के होमबलि की नाई उसे यहांवा को सुखदायक सुगंध देनेहारा हव्य करके चढ़ाना ॥

९ फिर विश्रामदिन को बरस बरस दिन के दो निर्दोष भेड़ के बच्चे और अन्नबलि के लिये तेल से सना हुआ एपा का दो दसवां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना । १० नित्य होमबलि और उस के अर्घ से अधिक एक एक विश्रामदिन का यही होमबलि ठहरा है ॥

११ फिर अपने एक एक महीने के आदि में यहोवा के लिये होमबलि चढ़ाना अर्थात् दो बछड़े एक भेड़ा और १२ बरस बरस दिन के सात निर्दोष भेड़ के बच्चे । और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का तीन दसवां अंश मैदा और उस एक भेड़े के साथ तेल से सना एपा का १३ दो दसवां अंश मैदा, और भेड़ के बच्चे पीछे तेल से सना हुआ एपा का दसवां अंश मैदा उन सभी को अन्नबलि करके चढ़ाना वह सुखदायक सुगंध देनेहारा १४ होमबलि और यहोवा के लिये हव्य ठहरेगा । और उन के साथ ये अर्घ है अर्थात् बछड़े पीछे आध हीन भेड़े के

साथ तिहाई हीन और भेड़ के बच्चे पीछे चौथाई हीन दाखमधु दिया जाए बरस के सब महीनों में से एक एक महीने का यही होमबलि ठहरे । और एक बकरा पापबलि १५ करके यहांवा के लिये चढ़ाया जाय यह नित्य होमबलि और उस के अर्घ से अधिक चढ़ाया जाए ॥

फिर पहिले महीने के चौदहवें दिन को यहोवा १६ का पसह हुआ करे । और उसी महीने के पन्द्रहवें दिन १७ के पर्व लगा कर सात दिन लंबा अन्नबलि रोटी खाई जाए । पहिले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम १८ का कोई काम न किया जाए । उस में तुम यहोवा १९ के लिये एक हव्य अर्थात् होमबलि चढ़ाना सो दो बछड़े एक भेड़ा और बरस बरस दिन के सात भेड़ के बच्चे ही ये सब निर्दोष हों । और उन का अन्नबलि तेल से सने २० हुए मैदे का दो बछड़े पीछे एपा का तीन दसवां अंश और भेड़े के साथ एपा का दो दसवां अंश मैदा हो । और २१ सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे पीछे एपा का दसवां अंश चढ़ाना । और एक बकरा भी पापबलि २२ करके चढ़ाना जिस से तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त हो । भोर २३ का होमबलि जो नित्य होमबलि ठहरा है उस से अधिक इन को चढ़ाना । इस रीति से तुम उन सातों दिनों में २४ भी हव्यवाला भोजन चढ़ाना जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देनेहारा हो यह नित्य होमबलि और उस के अर्घ से अधिक चढ़ाया जाए । और सातवें दिन भी तुम्हारी पवित्र २५ सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना ॥

फिर पहिली उपज के दिन में जब तुम अपने २६ अठवार नाम पर्व में यहांवा के लिये नया अन्नबलि चढ़ाओगे तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना । और एक होमबलि चढ़ाना जि- २७ से यहोवा के लिये सुखदायक सुगंध हो अर्थात् दो बछड़े एक भेड़ा और बरस बरस दिन के सात भेड़ के बच्चे । और उन का अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का दो अर्थात् २८ बछड़े पीछे एपा का तीन दसवां अंश और भेड़े के संग एपा का दो दसवां अंश, और सातों भेड़ के बच्चों में २९ से एक एक बच्चे पीछे एपा का दसवां अंश मैदा चढ़ाना । और एक बकरा भी चढ़ाना जिस से तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त ३० हो । ये सब निर्दोष हों और नित्य होमबलि और उस के ३१ अन्नबलि और अर्घ से अधिक इस को भी चढ़ाना ॥

**२९. फिर** सातवें महीने के पहिले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो परिश्रम का कोई काम न करना वह तुम्हारे लिये जयजयकार का नरसिंगा फूकने का दिन ठहरा है । तुम होमबलि चढ़ाना २ जिस से यहांवा के लिये सुखदायक सुगंध हो अर्थात् एक

- बलुड़ा एक मेढ़ा और बरस बरस दिन के सात निर्दोष  
३ मेड़ के बच्चे । और उन का अन्नबलि तेल से सने हुए  
मेड़े का हो अर्थात् बलुड़े के साथ एपा का तीन दसवां  
४ अंश और मेड़े के साथ एपा का दो दसवां अंश, और  
सातों मेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे पीछे एपा का  
५ दसवां अंश मैदा चढ़ाना । और एक बकरा भी पापबलि कर  
६ के चढ़ाना जिस से तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त हो । इन सभी  
से अधिक नये चांद का होमबलि और उस का अन्नबलि  
और नित्य होमबलि और उस का अन्नबलि और उन सभी  
के अर्घ भी उन के नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध  
देनेहारा यहीवा का हव्य करके चढ़ाना ॥
- ७ फिर उसी सातवें महीने के दसवें दिन को तुम्हारी  
पवित्र सभा हो तुम अपने अपने जीव को दुःख देना और  
८ किसी प्रकार का कामकाज न करना । और यहीवा के लिये  
सुखदायक सुगंध देने का होमबलि अर्थात् एक बलुड़ा  
एक मेढ़ा और बरस बरस दिन के सात मेड़ के बच्चे चढ़ाना  
९ ये सब निर्दोष हो । और उन का अन्नबलि तेल में मने  
हुए मेड़े का हो अर्थात् बलुड़े के साथ एपा का तीन दसवां  
१० अंश मेड़े के साथ एपा का दो दसवां अंश और सातों  
मेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे पीछे एपा का दसवां  
११ अंश मैदा चढ़ाना । और पापबलि के लिये एक बकरा भी  
चढ़ाना ये सब प्रायश्चित्त के पापबलि और नित्य होमबलि  
और उस के अन्नबलि से और उन सभी के अर्घों से  
अधिक चढ़ाये जायें ॥
- १२ फिर सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन को तुम्हारी  
पवित्र सभा हो और उस में परिश्रम का कोई काम न  
करना और सात दिन लो यहीवा के लिये पर्व मानना ।  
१३ तुम होमबलि यहीवा का सुखदायक सुगन्ध देनेहारा  
हव्य करके चढ़ाना अर्थात् तरह बलुड़े दो मेड़े और बरस  
बरस दिन के चौदह मेड़ के बच्चे ये सब निर्दोष हो ।  
१४ और उन का अन्नबलि तेल से सने हुए मेड़े का हो  
अर्थात् तरह बलुड़े में से एक एक बलुड़े पीछे एपा का  
तीन दसवां अंश दोनो मेड़ों में से एक एक मेड़े पीछे  
१५ एपा का दो दसवां अंश, और चांदहो मेड़ के बच्चों में से  
१६ बच्चे पीछे एपा का दसवां अंश मैदा, और पापबलि के  
लिये एक बकरा चढ़ाना ये नित्य होमबलि और उस के  
अन्नबलि और अर्घ से अधिक चढ़ाये जायें ॥
- १७ दूसरे दिन बारह बलुड़े दो मेड़े और बरस बरस  
१८ दिन के चौदह निर्दोष मेड़ के बच्चे चढ़ाना । और बलुड़ों  
मेड़ों और मेड़ के बच्चों के साथ उन के अन्नबलि और  
अर्घ उन की गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार  
१९ चढ़ाना । और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना ये

नित्य होमबलि और उस के अन्नबलि और अर्घ से अधिक  
चढ़ाये जायें ॥

तीसरे दिन ग्यारह बलुड़े दो मेड़े और बरस बरस २०  
दिन के चौदह निर्दोष मेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बलुड़ों २१  
मेड़ों और मेड़ के बच्चों के साथ उन के अन्नबलि और  
अर्घ उन की गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार  
चढ़ाना । और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना ये २२  
नित्य होमबलि और उस के अन्नबलि और अर्घ से अधिक  
चढ़ाये जायें ॥

चौथे दिन दस बलुड़े दो मेड़े और बरस बरस दिन २३  
के चौदह निर्दोष मेड़ के बच्चे चढ़ाना । बलुड़ों मेड़ों और २४  
मेड़ के बच्चों के साथ उन के अन्नबलि और अर्घ उन की  
गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना । और २५  
पापबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना ये नित्य होमबलि  
और उस के अन्नबलि और अर्घ से अधिक चढ़ाये जायें ॥

पांचवें दिन नौ बलुड़े दो मेड़े और बरस बरस दिन २६  
के चौदह निर्दोष मेड़ के बच्चे चढ़ाना । और बलुड़ों मेड़ों २७  
और मेड़ के बच्चों के साथ उन के अन्नबलि और अर्घ उन  
की गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना ।  
और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना ये नित्य २८  
होमबलि और उस के अन्नबलि और अर्घ से अधिक  
चढ़ाये जायें ॥

छठवें दिन आठ बलुड़े दो मेड़े और बरस बरस दिन २९  
के चौदह निर्दोष मेड़ के बच्चे चढ़ाना । और बलुड़े मेड़ों और ३०  
मेड़ के बच्चों के साथ उन के अन्नबलि और अर्घ उन की  
गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना । और ३१  
पापबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना ये नित्य होमबलि  
और उस के अन्नबलि और अर्घ से अधिक चढ़ाये जायें ॥

सातवें दिन सात बलुड़े दो मेड़े और बरस बरस दिन ३२  
के चौदह निर्दोष मेड़ के बच्चे चढ़ाना । और बलुड़ों मेड़ों और ३३  
मेड़ के बच्चों के साथ उन के अन्नबलि और अर्घ उन की  
गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना । और ३४  
पापबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना ये नित्य होमबलि  
और उस के अन्नबलि और अर्घ से अधिक चढ़ाये  
जायें ॥

आठवें दिन तुम्हारी एक महासभा हो उस में ३५  
परिश्रम का कोई काम न करना । और उस में होमबलि ३६  
यहीवा का सुखदायक सुगन्ध देनेहारा हव्य करके  
चढ़ाना वह एक बलुड़े एक मेड़े और बरस बरस दिन के  
सात निर्दोष मेड़ के बच्चों का हो । बलुड़े मेड़ों और मेड़ ३७  
के बच्चों के साथ उन के अन्नबलि और अर्घ उन की  
गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना । और ३८

पापबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना ये नित्य होमबलि और उस के अन्नबलि और अर्घ से अधिक चढ़ाये जायें ॥

- ३६ अपनी मन्त्राँ और स्वेच्छाबलियों से अधिक अपने अपने नियत समयों में ये ही होमबलि अन्नबलि अर्घ और ४० होमबलि यहावा के लिये चढ़ाना । यह सारी आज्ञा जो यहावा ने मूसा को दी सो उस ने इस्राएलियों को सुनाई ॥  
(मन्त्रत मानने की विधि)

**३०. फिर** मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा यहावा ने

- १ यह आज्ञा दी है कि, जब कोई पुरुष यहावा की मन्त्रत माने वा अपने आप को वाचा से बांधने के लिये किरिया खाए तो वह अपना वचन न टाले जो कुछ उस के मुँह से निकला हो उस के अनुसार वह करे । और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर रहते ४ यहावा की मन्त्रत माने वा अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उस का पिता उस की मन्त्रत वा उस का वह वचन सुन कर जिस से उस ने अपने आप को बांधा हो उस से कुछ न कह तब तो उस की सब मन्त्रतें स्थिर बनी रहें और कोई बंधन क्यों न हो जिस से उस ने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रह । पर यदि उस का पिता उस की सुनके उसी दिन को उस को बरजे तो उस की मन्त्रतें वा और प्रकार के बंधन जिन से उस ने अपने आप को बांधा हो उन में से एक भी स्थिर न रहे और यहावा यह जान कर कि उस स्त्री के पिता ने उसे बरज दिया है ६ उस का वह पाप क्षमा करेगा । पर यदि वह पति के अधीन हो और मन्त्रत माने वा बिना सोच विचार किये ७ ऐसा कुछ कहे जिस से वह बंधन में पड़े । और यदि उस का पति सुन कर उस दिन उस से कुछ न कहे तब तो उस की मन्त्रतें स्थिर रहें और जिन बन्धनों में उस ने अपने आप को बांधा हो सो स्थिर रहें । पर यदि उस का पति सुन कर उसी दिन उसे बरज दे तो जो मन्त्रत उस ने मानी और जो बात बिना सोच विचार किये करने में उस ने अपने आप को वाचा से बांधा हो सो टूट जाएगी ९ और यहावा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा । फिर विधवा वा त्यागी हुई स्त्री की मन्त्रत व किसी प्रकार को वाचा का बंधन क्यों न हो जिस से उस ने अपने आप को बांधा हो सो स्थिर ही रहे । फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्त्रत माने वा किरिया खाकर अपने ११ आप को बांधे, और उस का पति सुन कर कुछ न कहे और न उसे बरज दे तब तो उस की सब मन्त्रतें स्थिर बनी रहें और हर एक बंधन क्यों न हो जिन में उस ने १२ अपने आप को बांधा हो सो स्थिर रहें । पर यदि उस का

पति उस की मन्त्रत आदि सुन कर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे तो उस की मन्त्रतें आदि जो कुछ उस के मुँह से अपने बन्धन के विषय निकला हो उस में से एक बात भी स्थिर न रहे उस के पति ने सब तोड़ दिया है सो यहावा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा । कोई भी मन्त्रत वा किरिया क्यों न हो जिस से उस स्त्री ने अपने जीव को दुःख देने की वाचा बांधी हो उस का उस का पति चाहे तो हट करे और चाहे तो तोड़े । अर्थात् यदि उस का पति दिन दिन उस से कुछ भी न कहे तो वह उस की सब मन्त्रत आदि बंधनों की जिन से वह बंधी हो हट कर देता है उस ने उन को हट किया है क्योंकि सुनने के दिन उस ने कुछ नहीं कहा । और यदि वह उन्हें सुन कर पीछे तोड़ दे तो अपनी स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा । पति पत्नी के बीच और पिता और उस के घर में रहती हुई कुंवारी बेटों के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहावा ने मूसा को दी थी वे ही हैं ॥  
(मिथ्यानीयों में पलटा लेने का वर्णन)

**३१. फिर** यहावा ने मूसा से कहा, मिथ्यानीयों से इस्राएलियों का पलटा ले पीछे

- ३ अपने लोगों में जा मिलेगा । सो मूसा ने लोगों से कहा अपने में से पुरुषों का युद्ध के लिये हथियार बांधाओ कि वे मिथ्यानीयों पर चढ़के उन से यहावा का पलटा लें । इस्राएल के सब गोत्रों में से एक एक गोत्र के एक एक हजार पुरुषों का युद्ध करने के लिये भेजा । सो इस्राएल के सब हजारों में से एक एक गोत्र के एक एक हजार पुरुष चुने गये अर्थात् युद्ध के लिये हथियारबंद चारह हजार पुरुष । एक एक गोत्र में से उन हजार हजार पुरुषों को और एलाजार याजक के पुत्र पिनहाम को मूसा ने युद्ध करने के लिये भेजा और उस के हाथ में पवित्रस्थान के पाथ और वे तुरहियाँ थीं जो सोना बांध बांध कर फूँकी जाती थीं । और जो आज्ञा यहावा ने मूसा को दी थी उस के अनुसार उन्होंने ने मिथ्यानीयों में युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया । और दूसरे जूमे हुआ को स्त्री उन्होंने ने एवी रेकेम सू हू और रवा नाम मिथ्यानीयों के पाँचों राजाओं को घात किया । और बोर के पुत्र विलाम को भी उन्होंने ने तलवार से घात किया । और इस्राएलियों ने मिथ्यानीयों स्त्रियों को बालबच्चों समेत बंधुई कर लिया और उन के गाय बैल भेड़ बकरी और उन की सारी संपत्ति को लूट लिया, और उन के निवास के सब नगरों और सब छावनीयों को फूँक दिया । तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बन्धुओं और मारा लूट पाट को लेकर, यरीशे के पास का यर्दन नदी के तीरे पर माआब के

अग्रा में छावनी के निकट मूसा और एलाजार याजक और इस्राएलियों की मण्डली के पास आये ॥

१३ तब मूसा और एलाजार याजक और मण्डली के सब प्रधान छावनी के बाहर उन की अगुवानी करने का निकले ।

१४ और मूसा सहस्रपति शतपति आदि सेनापतियों से जो

१५ युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर, कहने लगा क्या

१६ तुम ने सब स्त्रियों को जीती छोड़ दिया । देखो बिलाम

की सम्मति से पौर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का

विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मण्डली में

१७ मरी फेली । सो अब बालबच्चों में से हर एक लड़के को

और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मंह देखा है उन सभी

१८ को धात करे । पर जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न

१९ देखा हो उन सभी को तुम अपने लिये जीती रखो । और

तुम लोग सात दिन लों छावनी के बाहर रहे और तुम

में से जितनों ने किसी प्राणी का धात किया और जितनों

ने किसी मरे हुए के लुआ हो सो सब अपने अपने बंधुओं

समेत तीभरे और सातों दिनों में अपने अपने को पाप

२० ऋद्धाकर पावन करे । और सब बस्त्रों और चमड़े की बनी

हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की

२१ बनी हुई सब वस्तुओं का पावन कर लो । तब एलाजार

याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गये थे

२२ कहा व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा

का दी है सो यह है कि, सोना चांदी पीतल लोहा रांगा

और सीसा जो कुछ आग में ठहर सके उस को आग में

२३ डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा तीर्था वह अशुद्धता से

२४ ऋद्धानेवाले जल के द्वारा पावन किया जाए पर जो कुछ

आग में न ठहर सके उसे जल में बेरो । और सातवें

२५ दिन अपने वस्त्रों को धोना तब तुम शुद्ध ठहरेगे और

पीछे छावनी में आना ॥

२५. २६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलाजार याजक और

२७ मण्डली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के साथ

उन को आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को

२८ दे । फिर जो सिपाही युद्ध करने को गये थे उन के आधे

में से यहोवा के लिये क्या मनुष्य क्या गाय बैल क्या गदहे

२९ क्या भेड़ बकरियां पांच सौ पीछे एक को कर मानकर ले

ले, और यहोवा की भेंट करके एलाजार याजक को दे दे ।

३० फिर इस्राएलियों के आधे में से क्या मनुष्य क्या गाय

बैल क्या गदहे क्या भेड़ बकरियां क्या किसी प्रकार का

३१ पशु पचास पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रख-

अनुसार जो उस ने मूसा का दी मूसा और एलाजार याजक ने किया । और जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने ३२

अपने अपने लिये लूट ली थीं उन से अधिक की लूट यह

३३ थी अर्थात् छः लाख पचहत्तर हजार भेड़ बकरी, बहत्तर ३३

हजार गाय बैल, इकसठ हजार गदहे, और मनुष्यों ३४, ३५

में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुंह न देखा था से सब

३६ बत्तीस हजार थीं । और इस का आधा अर्थात् उन का ३६

भाग जो युद्ध करने को गये थे उस में भेड़ बकरियां तीन

लाख साठे सैंतीस हजार, जिन में से पौने सात सौ भेड़ ३७

बकरियां यहोवा का कर ठहरीं, और गाय बैल छत्तीस ३८

हजार जिन में से बहत्तर यहोवा का कर ठहरे, और गदहे ३९

साठे तीस हजार जिन में से इकसठ यहोवा का कर ठहरे,

और मनुष्य सोलह हजार जिन में से बत्तीस प्राणी यहोवा ४०

का कर ठहरे । इस कर का जो यहोवा की भेंट थी मूसा ४१

ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलाजार याजक को

दिया । और इस्राएलियों की मण्डली का आधा तीन लाख ४२

साठे सैंतीस हजार भेड़ बकरियां, छत्तीस हजार गाय ४३

बैल, साठे तीस हजार गदहे, और सोलह हजार ४४, ४५

मनुष्य हुआ । सो इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध ४६

करनेहारे पुरुषों के पास में अलग किया था यहोवा की

आज्ञा के अनुसार, मूसा ने क्या मनुष्य क्या पशु पचास ४७

पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करनेहारे

लेवीयों को दिया । तब सहस्रपति शतपति आदि जो ४८

सरदार सेना के हजारों के ऊपर ठहरे थे सो मूसा के पास

आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उन का ४९

तेरे दामों ने गिनती ली और उन में से एक भी नहीं

५० घटा । सो पायजेव कड़े मुंदरियां बालियां बाजबन्द सोने के

जो गहने जिस न पाया है उन को हम यहोवा के साम्हने

अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चन करने को यहोवा की

भेंट करके ले आये हैं । तब मूसा और एलाजार याजक ५१

न उन से व सब सोने के नकाशीदार गहने ले लिये ।

और सहस्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना ५२

यहोवा की भेंट करके दिया सो सब का सब सोलह

हजार साठे सात सौ शेकेल का था । योद्धाओं ने तो ५३

अपने अपने लिये लूट ली थी । यह सोना मूसा ५४

और एलाजार याजक ने सहस्रपतियों और शतपतियों में

लेकर मिलापवाले तंबू में पहुँचा दिया कि इस्राएलियों के

लिये यहोवा के साम्हने स्मरण दिलानेहारी वस्तु ठहरे ॥

(अर्थात् सोने के इस्राएलियों की यदन के इसी

पार भाग मिलने का वर्णन)

३२. रुबनियों और गादियों के पास बहुत  
हाँ ढोर थे सो जब उन्होंने



याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार कि यह  
 २ दोनों के योग्य देश है, तब मूसा और एलाजार याजक  
 और मण्डली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे,  
 ३ अतारगत दीवान याजेर निम्ना देशवान एलाले सबाम  
 ४ नबो और वोन नगरों का देश, जिस को यहोवा ने  
 इस्राएल को मण्डली से जितवाया है सो दोनों के योग्य  
 ५ है और तेरे दासों के पास ठौर हैं। फिर उन्होंने कहा  
 यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों  
 ६ को मिले कि उन की निज भूमि हो हमें यर्दन पार न ले  
 चल। मूसा ने गादियों और रुबेनियों से कहा जब तुम्हारे  
 भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहीं बैठे रहोगे।  
 ७ और इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय  
 जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों नाह करारते हो।  
 ८ जब मैं ने तुम्हारे बापदादों को कादेशबर्ने से कनान देश  
 देखने के लिये भेजा तब उन्होंने ने भी ऐसा ही किया था।  
 ९ अर्थात् जब उन्होंने ने एशकोल नाम वाले लों पहुँचकर  
 देश को देखा तब इस्राएलियों से उस देश के विषय  
 १० जो यहोवा ने उन्हें दिया था नाह करा दिया। सो उस  
 समय यहोवा ने कोप करके यह किरिया खाई कि,  
 ११ निःसन्देह जो मनुष्य मिस्र से निकल आये हैं उन में से  
 जितने बीस बरस के वा उस से अधिक अवस्था के हैं सो  
 उस देश को देखने न पाएँगे जिस के देने की किरिया  
 मैं ने इब्राहीम इमहाक और याकूब से खाई है क्योंकि वे  
 १२ मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिये। पर यपुन्ने कनजी  
 का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू ये दोनों जो मेरे  
 १३ पीछे पूरी रीति से हो लिये हैं वे तो उसे देखने पाएँगे। सो  
 यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का और जब लों उस  
 पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने ने यहोवा के  
 १४ उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो तुम  
 लोग उन पापियों के वचन होकर इसी लिये अपने बाप-  
 दादों के स्थान पर प्रगट हुए हो कि इस्राएल के विरुद्ध  
 १५ यहोवा के भड़के हुए कोप का और भी भड़काओ। यदि  
 तुम उस के पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम  
 सभी को जंगल में छोड़ देगा सो तुम इन सारे लोगों को  
 १६ नाश कराओगे। तब उन्होंने ने मूसा के और निकट आकर  
 कहा हम अपने ढेरों के लिये यहीं सारे बनाएँगे और अपने  
 १७ बालबच्चों के लिये यहीं नगर बसाएँगे। पर हम आप इस्रा-  
 एलियों के आगे आगे हथियारबंध तब लों चलेंगे जब  
 लों उन को उन के स्थान में न पहुँचा दें पर हमारे  
 बालबच्चे इस देश के निवासियों के डर से गड़वाले नगरों  
 १८ में रहेंगे। पर जब लों इस्राएल अपने अपने भाग के

अधिकारी न हों तब लों हम अपने घरों को न लौटेंगे।  
 हम उन के साथ यर्दन पार वा कहीं आगे अपना भाग १९  
 न लेंगे क्योंकि हमारा भाग यर्दन के इसी पार पूरब और  
 मिला है। तब मूसा ने उन से कहा, यदि तुम ऐसा करो २०  
 अर्थात् यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथि-  
 यार बांधो, और हर एक हाथियारबन्ध यर्दन के पार तब २१  
 लों चले जब लों यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को  
 न निकाले, और देश यहोवा के वश में न आए, तो उस २२  
 के पीछे तुम यहां लौटोगे और यहोवा के और इस्राएल  
 के विषय निर्दोष ठहरेगी और यह देश यहोवा के लेखे में  
 तुम्हारा निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा न करोगे २३  
 तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरेगी और जान रखो कि तुम  
 को तुम्हारा पाप लगेगा। सो अपने बालबच्चों के लिये २४  
 नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिये भेड़साले  
 बनाओ और जो तुम्हारे मुँह से निकला है सोई करो।  
 तब गादियों और रुबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु २५  
 की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बालबच्चे २६  
 चियां भेड़ बकरां आदि सब पशु तो यहीं गिलाद के  
 नगरों में रहेंगे। पर अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे २७  
 दास सब के सब युद्ध के लिये हथियारबंध यहोवा के आंग  
 आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उन के विषय २८  
 में एलाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और  
 इस्राएलियों के गोत्रों के पितरों के घराना के मुख्य मुख्य  
 पुरुषों को यह आज्ञा दी कि, यदि सब गादी और रुबेनी २९  
 पुरुष युद्ध के लिये हथियारबंध तुम्हारे संग यर्दन पार जाएं  
 और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश उन  
 की निज भूमि होने को उन्हें देना। पर यदि वे तुम्हारे ३०  
 संग हथियारबंध पार न जाएं तो उन की निज भूमि तुम्हारे  
 बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रुबेनी बोल ३१  
 उठे यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम  
 करेंगे। हम हथियारबंध यहोवा के आगे आगे उस पार ३२  
 कनान देश में जाएंगे पर हमारा निज भूमि यर्दन के इसी  
 पार ठहरे ॥

तब मूसा ने गादियों और रुबेनियों को और ३३  
 यूसुफ के पुत्र मनशे के आधे गोत्रियों को एमारियों के  
 राजा सीधान और बाशान के राजा आग दोनों के राज्यों  
 का देश नगरों और उन के आसपास की भूमि समत ३४  
 दिया। तब गादियों ने दीवान अतारगत आरोएर ३५  
 अत्रौत शोपान याजेर योगबहा, बेतनिम्ना और ३६  
 बेथारान नाम नगरों को हट किया और उन में भेड़  
 बकरियों के लिये भेड़साले बनाई। और रुबेनियों ने ३७  
 देशवान एलाले और किर्यातम को, फिर नबो और ३८

बालमोन के नाम बदलकर उन को और सिवमा को हट किया । और उन्होंने अपने हट किये हुए नगरी के ३९ और और नाम रक्खे । और मनश्शे के पुत्र माकीर के बंशवालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया और जो एमोरी उस में रहते थे उन को निकाल दिया । ४० तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के बंश को गिलाद ४१ दे दिया सो वे उस में रहने लगे । और मनश्शेई याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले लीं और उन के ४२ नाम हबोत्याईर रक्खे । और नोबह ने जाकर गांवीं समेत कनात को ले लिया और उस का नाम अपने नाम पर नोबह रक्खा ॥

(इस्त्राएलियों के पड़ाव पड़ाव की नामावली)

### ३३. जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई से दल यात्राकर

२ मिस्र देश में निकले तब से उन के ये पड़ाव हुए । मूसा ने यहाया से आज्ञा पाकर उन के कूच उन के पड़ावों के ३ अनुसार लिख दिये और वे ये हैं । पहिले महीने के पन्द्रहवें दिन को उन्होंने गममेश से कूच किया । फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते ४ देखते निकल गये, जब कि मिस्री अपने सब पहिलोंओं को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहाया ने मारा था और उस ५ ने उन के देवताओं के भी दण्ड दिया था । इस्राएलियों ने गममेश से कूच करके मुक्कोत में डेरे डाले, और मुक्कोत से कूच करके एताम में जो जंगल की छोर पर है डेरे ७ डाले । और एताम से कूच करके वे पीहहीरोत का मुड़ गये जो बालसपोन के साम्हने है और मिगदोल के ८ साम्हने डेरे खड़े किये । तब वे पीहहीरोत के साम्हने से कूच कर समुद्र के बीच हांकर जंगल में गये और एताम नाम जंगल में तीन दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे ९ डाले । फिर मारा से कूच करके वे एलीम का गये और एलीम में जल के बारह सोते और सत्तर खजूर के वृक्ष १० मिले और उन्होंने वहां डेरे खड़े किये । तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तीर पर डेरे खड़े ११ किये, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल १२ में डेरे खड़े किये । फिर सीन नाम जंगल से कूच करके १३ उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके १४ आलूश में डेरा किया, और आलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया और वहां उन लोगों को पीने का १५ पानी न मिला । फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके १६ सीनै के जंगल में डेरे डाले । और सीनै के जंगल से

(१) अर्थात् याईर की बस्तियां । (२) मूल में के हाथ से । (३) मूल में कूचे हाथ से ।

कूच करके किब्रोथत्तावा में डेरा किया, और किब्रोथ- १७ त्तावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले, और हसेरोत १८ से कूच करके रिम्मा में डेरे डाले । फिर उन्होंने रिम्मा १९ से कूच करके रिम्मोनपेरेस में डेरे खड़े किये, और २० रिम्मोनपेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किये, और २१ लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किये, और २२ रिस्सा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया । और २३ कहेलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया । फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा २४ किया, और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, २५ और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किये, २६ और तहत से कूच करके तेरह में डेरे डाले, और २७, २८ तेरह से कूच करके मिक्का में डेरे डाले, फिर मिक्का से २९ कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना ३० से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किये, और मोसेरोत ३१ से कूच करके याकानिया के बीच डेरा किया, और याका- ३२ निया के बीच से कूच करके हाहर्गिगदगाद में डेरा किया, और हाहर्गिगदगाद से कूच करके योतवाता में डेरा ३३ किया, और योतवाता से कूच करके अब्राना में डेरे ३४ खड़े किये, और अब्राना से कूच करके एम्योनगेबे में ३५ डेरे खड़े किये, और एम्योनगेबे से कूच करके उन्होंने ३६ सीन नाम जंगल के कादेश में डेरा किया । फिर कादेश ३७ से कूच करके होर पर्वत के पास जो एदोम देश के सवाने पर है डेरे डाले । यहां इस्राएलियों के मिस्र देश ३८ से निकलने के चालीसवें बरस के पाचवें महीने के पहिले दिन को हारून याजक यहाया की आज्ञा पाकर होर ३९ पर्वत पर चढ़ा और वहां मर गया । और जब हारून ४० हार पर्वत पर मर गया तब वह एक सा तेईस बरस का था । और अरात का कनानी राजा जो कनान देश के ४१ दक्खिन भाग में रहता था उस ने इस्राएलियों के आने का ममाचार पाया । तब इस्राएलियों ने हार पर्वत से कूच ४२ करके सलमोना में डेरे डाले, और सलमोना से कूच ४३ करके पूनोन में डेरे डाले, और पूनोन से कूच करके अब्रांस में डेरे डाले, और अब्रांस से कूच करके अबाराम नाम ४४ डोंहा में जो मोआब के सिवाने पर है डेरे डाले । तब ४५ उन डोंहा से कूच करके उन्होंने दीबोनगाद में डेरा किया, और दीबोनगाद से कूच करके अल्मानादबलातैम ४६ में डेरा किया, और अल्मानादबलातैम से कूच करके ४७ उन्होंने अबाराम नाम पहाड़ी में नबों के साम्हने डेरा किया, फिर अबाराम पहाड़ी से कूच करके मोआब के ४८ अराबा में यरीहा के पास की यदन नदी के तीर पर डेरा किया । और वे मोआब के अराबा में बेल्यशीमात से ४९

ले हर आये तश्चितीम लों यर्दन के तीर तीर डेर डाले हुए रहे ॥

- ५० मोआव के अगवा में यरीहो के पास की यर्दन  
 ५१ नदी के तीर पर यहावा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझा कर कह कि जब तुम यर्दन पार होकर कनान देश में पहुँचो, तब उम देश के निवासियों को उन के देश से निकाल देना और उन के सब नकाश पत्थरों को और दली हुई मूर्तियों को नाश करना और उन के सब पूजा के ऊँचे स्थानों को ढा देना । और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उस में बचना क्योंकि मैं ने वह देश तुम्हीं को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो ।  
 ५४ और तुम उस देश को चिट्टी डालकर अपने कुलों के अनुसार बाँट लेना अर्थात् जो कुल अधिकवाल हैं उन्हें अधिक और जो थोड़ेवाले हैं उन को थोड़ा भाग देना जिस कुल की चिट्टी जिस स्थान के लिये निकले वही उस का भाग ठहरे अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना । पर यदि तुम उस देश के निवासियों को न निकालो तो उन में से जिन को तुम उस में रहने दो सो मानो तुम्हारी आँखों में काँटे और तुम्हारे पाँजरो में कीलें ठहरेंगे और वे उस देश में जहाँ तुम बसेगो तुम्हें मकट में डालेंगे । और उन से जैसा बताव करने की मनसा मैं ने की है वैसा तुम से करूंगा ॥

(कनान देश के सिवाने)

- २ ३४. फिर यहावा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का यह आज्ञा दे कि जो देश तुम्हारा भाग हागा वह तो बारा और के सिवाने तक का कनान देश है सो जब तुम कनान देश में पहुँचो, तब तुम्हारा दक्खिनी प्रान्त सीन नाम जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे हाता हुआ चला जाए और तुम्हारा दक्खिनी सिवाना खार ताल के पार पर आरम हाकर पश्चिम ओर चले । वहाँ से तुम्हारा सिवाना अक्रब्बाम नाम चढ़ाई की दक्खिन ओर पहुँचकर मुड़े और सीन लों आए और कादेशबने का दक्खिन ओर निकले और हसरहा तक बढ़के अम्मान लों पहुँचें ।  
 ५ फिर वह सिवाना अस्मोन से घूमकर मिस्र के नाले ला पहुँचे और उस का अन्त समुद्र का तट ठहर ।  
 ६ फिर पश्चिमी सिवाना महासमुद्र हो तुम्हारा पच्छिमी  
 ७ सिवाना यही ठहरे । औ तुम्हारा उत्तरीय सिवाना यह हो अर्थात् तुम महासमुद्र से ले होर पर्वत लों सिवाना बांधना । औ होर पर्वत से हमत की धाटी लों  
 ९ सिवाना बांधना और वह सदाद पर निकले । फिर वह सिवाना जिप्रोन लों पहुँचे और हसरनान पर निकले

तुम्हारा उत्तरीय सिवाना यही ठहरे । फिर अपना पूरबी सिवाना हसरनान से शपाम लों बांधना । और वह सिवाना शपाम से रबला लों जो ऐन की पूरब ओर है नीचे का उतरते उतरते किलेरत नाम ताल के पूरब तीर से लग जाए । और वह सिवाना यर्दन लों उतरके खार ताल के तट पर निकले तुम्हारे देश के चारों सिवाने यही ठहरे । तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा जिस देश के तुम चिट्टी डालकर अधिकारी होगे और यहावा ने उसे साढ़े नौ गाँव के लोग को देने की आज्ञा दी है सो यही है । पर रुबेनिया और गादिया के गीत्री लों अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं । अर्थात् उन अढ़ाई गोत्रों के लोग यरीहो के पास की यर्दन के पार पूरब दिशा में जहाँ सूर्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं ॥

फिर यहावा ने मूसा से कहा कि, जो पुरुष तुम लोग के लिये उस देश को बाँटेंगे उन के नाम ये हैं अर्थात् एलाजार याजक और नून का पुत्र यहाशू । और देश को बाँटने के लिये एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना । और इन पुरुषों के नाम ये हैं अर्थात् यहादागोत्री यफ्फे का पुत्र कालेब, शिमानगोत्री अम्मीहूद का पुत्र शमूएल, विन्ग्रामीनगोत्री किमलोन का पुत्र एलीदाद, दानियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुकी, यूसुफियों में से मनश्शेइया के गोत्र का प्रधान एपाद का पुत्र हन्नीएल, और एप्रैमियों के गोत्र का प्रधान शितान का पुत्र कमएल, जन्तूनियों के गोत्र का प्रधान पर्नाक का पुत्र एलीसापान, इस्राकारियों के गोत्र का प्रधान अजान का पुत्र पलतीएल, आशोरिय के गोत्र का प्रधान शलोमी का पुत्र अहीहूद, और नसालियों के गोत्र का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र पदहल । जिन पुरुषों को यहावा ने कनान देश को इस्राएलियों के लिये बाँटने का आज्ञा दी सो ये ही हैं ॥

(लेवीयों के नगरों की ओर शरणनगरों की विधि)

३५. फिर यहावा ने मोआव के अगवा में यरीहो के पास की यर्दन नदी के तीर पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवीयों को रहने के लिये नगर देना और नगरों के चारा और की चराइयाँ भी उन को देना । नगर तो उन के रहने के लिये और चराइयाँ उन के गाय बैल भेड़ बकरी आदि उन के सब पशुओं के लिये होंगी । और नगरों की चराइयाँ जिन्हें तुम लेवीयों को दोगे सो एक

एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर एक एक हजार हाथ तक की हों। और नगर के बाहर पूरब दक्खिन पच्छिम और उत्तर अलंग दे। दो हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचोबीच हो लेवीयों के ६ एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और जो नगर तुम लेवीया को दोगे उन में से छः शरणनगर हों जिन्हें तुम को खूनी के भागने के लिये ठहराना हांग। और उन से अधिक बयालीस नगर और भी देना। ७ जितने नगर तुम लेवीयों को दोगे सो सब अइतार्लास ८ हा और उन के साथ चराइया देना। और जो नगर तुम इस्त्राएलियों की निज भूमि में से दे। सो जिन के बहुत नगर हों उन से बहुत और जिन के थोड़े नगर हों उन से थोड़े लेकर देना सब अपने अपने नगरों में से लेवीयों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दें ॥

९, १० फिर यहावा ने मूसा से कहा, इस्त्राएलियों से कह ११ कि जब तुम यर्दन पार हाकर कनान देश में पहुँचों, तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिये शरणनगर हों कि जो कोई किसी को भूल से मारके खूनी ठहरा हो सो वहाँ १२ भाग जाए। व नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेनेहार से शरण लेने के काम आएं कि जय ला खूनी न्याय के लिये मरुलों के साम्हने खड़ा न हो तब लों वह न मार १३ डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे सो छः १४ हों। तीन नगर तो यर्दन के इस पार और तीन कनान देश में देना शरणनगर इतने ही रहें। ये छह नगर इस्त्राएलियों के और उन के बीच रहनेहार परदेशियों के लिये भी शरणस्थान ठहरें कि जो कोई किसी का भूल से मार १६ डाले सो वहीं भाग जाए। पर यदि कोई किसी को लोहे के किसी हाथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह खूनी १७ ठहरगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिस से कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी १८ खूनी ठहरगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। व कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिन से कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी १९ ठहरगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लोह का पलटा लेनेहारा थाप ही उस खूनी को मार डाले जब २० ही मिले तब ही वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे वा घात लगाकर कुछ उस पर २१ ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए, वा शत्रुता से उस को अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो जिस ने मारा हो सो अवश्य मार डाला जाए वह खूनी ठहरगा सो लोह का पलटा लेनेहारा जब ही वह खूनी उसे मिल जाए

तब ही उस को मार डाले। पर यदि कोई किसी का २२ बिना सोचे और बिना शत्रुता रखले ढकेल दे वा बिना घात लगाये उस पर कुछ फेंक दे, वा ऐसा कोई पत्थर २३ लेकर जिस से कोई मर सकता है दूसरे को बिन देखे उस पर फेंक दे और वह मर जाए पर वह न उस का शत्रु और न उस की हानि का खोजी रहा हो, तो मरुडली २४ मारनेहारे और लोह के पलटा लेनेहारे के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे। और मरुडली उस खूनी को लोह २५ के पलटा लेनेहारे के हाथ से बचाकर उस शरणनगर में जहाँ वह पहिले भाग गया हो लौटा दे और जब लों पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब लों वह वहीं रहे। पर यदि वह खूनी उस शरणनगर के २६ सिवाने से जिस में वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए, और लोह का पलटा लेनेहारा उस को २७ शरणनगर के सिवाने के बाहर कहीं पाकर मार डाले तो वह लोह बहाने का दषी न ठहरे। क्योंकि खूनी का २८ महायाजक की मृत्यु लों शरणनगर में रहना चाहिये और महायाजक के मरने के पीछे वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के २९ स्थानों में न्याय की यह विधि ठहरी रहे। और जो कोई ३० किसी मनुष्य को मार डाले सो साक्षियों के कहे पर मार डाला जाए पर एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला जाए। और जो खूनी प्राणदण्ड के योग्य ठहरे उसे ३१ से प्राणदण्ड के बदले में जुरमाना न लेना वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरणनगर में भागा हो ३२ उस के लिये भी इस मतलब से जुरमाना न लेना कि वह याजक के मरने से पहिले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। सो जिस देश में तुम रहोगे उस को अशुद्ध ३३ न करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लोह बहाने ही से उस देश का प्रायाश्चित्त हो सकता है। सो जिस ३४ देश में तुम रहनेहारे हांगे उस के बीच में रहूंगा उस को अशुद्ध न करना मैं यहीवा ता इस्त्राएलियों के बीच रहता हूँ ॥

(गोत्र गोत्र के भाग में गड़बड़ पड़ने का निषेध)

३६. फिर मूसफियों के कुलों में से गिलाद ज। भाकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था उस के वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के साम्हन जा इस्त्राएलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये कहने लगे, यहीवा ने हमारे प्रभु २ को आज्ञा दी थी कि इस्त्राएलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना और फिर यहावा की यह भा आज्ञा

- हमारे प्रभु को मिले कि हमारे सगोत्री सलोफाद का  
 ३ भाग उस की बेटियों को देना । सो यदि वे इस्त्राएलियों  
 के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाएं तो उन का  
 भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा और जिस  
 गोत्र में वे ब्याही जाएं उसी गोत्र के भाग में मिल  
 ४ जाएगा सो हमारा भाग घट जाएगा । और जब इस्त्राए-  
 लियों की जुबली १ होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही  
 जाएं उस के भाग में उन का भाग पक्की रीति से मिल  
 जाएगा और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा  
 ५ के लिये छूट जाएगा । तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा  
 ने इस्त्राएलियों से कहा यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं ।  
 ६ सलोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा  
 दी है कि जो वर जिस की दृष्टि में अच्छा लगे वह  
 उसी से ब्याही जाए पर वे अपने मूलपुरुष ही के गोत्र  
 ७ के कुल में ब्याही जाएं । और इस्त्राएलियों के किसी गोत्र  
 का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए इस्त्राएली  
 (१) अर्थात् महाराष्ट्रवाले नरसिंगे का शब्द ।

- अपने अपने मूलपुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहें ।  
 और इस्त्राएलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो ८  
 जो भाग पानेवाली हो सो अपने ही मूलपुरुष के गोत्र  
 के किसी पुरुष से ब्याही जाए इस लिये कि इस्त्राएली  
 अपने अपने मूलपुरुष के भाग के अधिकारी रहें । किसी ९  
 गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए  
 इस्त्राएलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग  
 पर बने रहें । यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उस ने १०  
 मूसा को दी सलोफाद की बेटियों ने किया । अर्थात् ११  
 महला तिस्रा होग्ला मलकर और नोआ जो सलोफाद  
 की बेटियां थीं उन्हो ने अपने चचेरे भाइयों से ब्याह  
 किया । वे यूसुफ के पुत्र मनशे के वंश के कुल में १२  
 ब्याही गईं और उन का भाग उन के मूलपुरुष के कुल  
 के गोत्र के अधिकार में बना रहा ॥  
 जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के १३  
 अराबा में यरीहो के पास की यर्दन नदी के तीर पर मूसा  
 के द्वारा इस्त्राएलियों को दिये सो ये ही हैं ॥

## व्यवस्थाविवरण नाम पुस्तक ।

(प्रथम वृत्तान्त का विवरण)

१. जो वात मूसा ने यर्दन के पार जंगल  
 में अर्थात् सुष के साम्हने के  
 अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लावान  
 हसेरात और दीजाहाब में सार इस्त्राएलियों से कहाँ सो  
 २ ये हैं । होरेब से कानेशबने तक सेइर पहाड़ का भाग  
 ३ ग्यारह दिन का है । चालीसवें परस के ग्यारहवें महीने के  
 पहिले दिन का जो कुड्र यहोवा ने मूसा को इस्त्राएलियों  
 से कहने की आज्ञा दी थी उस के अनुसार मूसा उन  
 ४ से ये बातें कहने लगा । अर्थात् जब मूसा ने एमारियों  
 के राजा हेसोनीवासी सीहोन और आशान के राजा  
 ५ अशतारोतवासी ओग को एद्रेई में मार डाला, उस के  
 पीछे यर्दन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का  
 ६ विवरण यों करने लगा कि, हमारे परमेश्वर यहोवा ने  
 होरेब के पास हम से कहा था कि तुम लोगों को इस  
 ७ पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गये हैं । सो अब  
 कूच करो और एमारियों के पहाड़ी देश को और क्या  
 अराबा में क्या पहाड़ में क्या नीचे के देश में क्या  
 दक्षिण देश में क्या समुद्र के तीर पर जितने लाग

- एमारियों के पास रहते हैं उन के देश को अर्थात् लवानोन  
 पर्वत लां और परात नाम महानद ला रहनेहार वना-  
 नियों के देश का भी चलें जाओ । सुनो मैं उस देश का ८  
 तुम्हारे साम्हने किये देता हूं सो जिस देश के विषय  
 यहोवा ने इब्राहीम इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों  
 से किरया लाकर कहा था कि मैं इसे तुम का और  
 तुम्हारे पीछे तुम्हारे वंश का दूंगा उस को अब जाकर  
 अपने अधिकार में कर लो । फिर उसी समय मैं ने ९  
 तुम से कहा कि मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं सह  
 सकता । क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम को यहां १०  
 लां बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारा  
 के समान हुए हो । तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम का ११  
 हजारगुणा और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार  
 तुम को आशय देता रहे । पर तुम्हारे जंजाल और भार १२  
 और भगड़े रगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता  
 हूं । सो तुम अपने एक एक गोत्र में से बुद्धिमान और १३  
 समझदार और प्रांसद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम  
 पर मुखिया करके ठहराऊंगा । इस के उत्तर में तुम ने १४  
 मुझ से कहा जो कुछ वृ हम से कहता है उस का करना

१५ अच्छा है। सो मैं ने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को जो बुद्धिमान् और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम पर मुखिया ठहराया अर्थात् हजार हजार सौ सौ पचास पचास और दस दस के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी ठहरा दिये। और उस समय मैं ने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी कि तुम अपने भाइयों के बीच के मुकद्दमे सुना करो और उन के बीच और उन के पड़ोसवाले पर-  
 १६ देशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी टुनना किसी का मुंह देखकर न डरना क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है और जो मुकद्दमा तुम्हारे लिये कठिन हो सो मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। और मैं ने उसी समय तुम्हारे सारे कर्त्तव्य कर्म तुम को बता दिये।  
 १९ और हम होरैव से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुम ने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा और हम कादेशबर्ने लो आये। वहां मैं ने तुम से कहा तुम एमोरियों के पहाड़ी देश लो आ गये हो जिस को हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साम्हने किये देता है सो अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में लो तो न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। सो तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हम को यह सन्देशा दें कि कौन से मार्ग होकर चलना और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैं ने तुम में से बारह पुरुष अर्थात् गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया। और वे पहाड़ पर चढ़ गये और एशकैल नाम वाले को पहुँचकर उस देश का भेद लिया, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आये और हम को यह सन्देशा दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है सो अच्छा है। तोभी तुम ने वहां जाने से नाह किया बरन अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध हो, अपने अपने डेरों में यह कह कर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हम से बैर रखता है इस कारण हम को मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हम को एमोरियों के बश में करके सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएँ हमारे भाइयों ने यह कहके हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहां के लोग हम से बड़े और लम्बे हैं और वहां के नगर बड़े बड़े हैं और उन की शहरनाह आकाश

से बातें करती हैं। और हम ने वहां अनाकवंशियों को भी देखा है। मैं ने तुम से कहा उ० के कारण प्रास मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है सो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा जैसे कि उस ने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिये किया। फिर तुम ने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उधर चलाता है उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हम को इस स्थान पर पहुँचने लो उस सारे मार्ग में जिस से हम आये हैं उठाये रहा। इस बात पर भी तुम ने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास न किया, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिये चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिये ढूँढ़े और रात को आग में और दिन को बादल में प्रगट होकर चलने का मार्ग दिखाए। सो तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उस ने यह किरिया खाई कि, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैं ने उन के पितरों को देने की किरिया खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उस के पांव पड़े हैं उसे मैं उस को और उस के वंश को भी दूंगा क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण कोपित हुआ और यह कहा कि तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे साम्हने खड़ा रहता है वह तो वहां जाने पाएगा सो उस को हियाव बंधा क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में बही कर देगा। फिर तुम्हारे बालबच्चे जिन के विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे और तुम्हारे जो लड़केवाले अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते वे वहां प्रवेश करेंगे और उन को मैं वह देश दूंगा और वे उस के अधिकारी होंगे। पर तुम लोग घूम कर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। तब तुम ने मुझ से कहा हम ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़के लड़ेंगे। सो तुम अपने अपने हाथियार बांध कर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गये। तब यहोवा ने मुझ से कहा उन से कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो क्योंकि मैं तुम्हारे बीच नहीं हूँ कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। यह बात मैं ने तुम से कह दी पर तुम ने न मानी बरन ठिठई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर

(१) मूल में नगर बड़े और आकाश लो वृद्ध है।

४४ चढ़ गये । तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा  
साम्भना करने को निकलकर मधुमक्खियों की नाईं  
तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होमा लों तुम्हें  
४५ मारते मारते चले आये । सो तुम लौटकर यहोवा के  
साम्भने रोने लगे पर यहोवा ने तुम्हारी न सुनी न  
४६ तुम्हारी बातों पर कान लगाया । और तुम जितने दिन  
रहे उतने अर्थात् बहुत दिन कादेश में रहे ॥

**२. तब** उस आशा के अनुसार जो यहोवा

ने मुझ को दी थी हम ने घूम कर  
कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर  
चले और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते  
२, ३ रहे । तब यहोवा ने मुझ से कहा, तुम लोगों को इस  
पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गये अब  
४ घूम कर उत्तर की ओर चलो । और तू प्रजा के लोगों  
को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने  
माई एसाविया के सिवाने के पास हाकर जाने पर हा  
और वे तुम से डर जाएंगे सो तुम बहुत चौकस रहो ।  
५ उन्हें न छेड़ना क्योंकि उन के देश में से मैं तुम्हें पांव  
धरने का ठौर तक न दूंगा इस कारण से कि मैं ने सेईर  
६ पर्वत एसाविया के अधिकार में कर दिया है । तुम उन  
से भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया  
७ देकर कूआं से पानी भरके पी सकोगे । क्योंकि तुम्हारा  
परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें  
आशिश देता आया है इस भारी जंगल में तुम्हारा  
चलना फिरना वह जानता है इन चालीस बरसों में  
८ तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा है तुम को  
कुछ बटी नहीं हुई । यों हम सेईर निवासी अपने माई  
एसावियों के पास से होकर अराबा के मार्ग और एलत  
और एस्थोनगेवर को पीछे छोड़कर चले ॥  
९ फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से हाकर  
चले और यहोवा ने मुझ से कहा मोआबिया को न सताना  
और न लड़ने को छेड़ना क्योंकि मैं उन के देश में से  
कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा क्योंकि मैं ने आर  
१० का लुतियों के अधिकार में किया है । अगले दिनों में  
वहा एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान  
११ बलवन्त और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे । और  
अनाकिया की नाईं वे भी रपाईं गिने जाते थे पर मोआबों  
१२ उन्हें एमी कहते हैं । और अगले दिनों सेईर में होरी लोग  
बसे हुए थे पर एसाविया ने उन को उस देश से निकाल  
दिया और अपने साम्भने से नाश करके उन के स्थान पर  
आप बस गये जैसे कि इस्राएलियों ने यहोवा के दिये हुए

अपने अधिकार के देश में किया । अब तुम लोग कूच १३  
करके जेरद नदी के पार जाओ सो हम जेरद नदी के पार  
आये । और हमारे कादेशबन को छोड़ने से लेकर जेरद १४  
नदी के पार होने लों अड़तीस बरस बीत गये उस बीच  
में यहोवा की किरिया के अनुसार उस पीछी के सब बोझा  
छावनी में से नाश हो गये । जब बां वे नाश न हुए १५  
तब ला यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा बालने  
के लिये उन के विरुद्ध बदा ही रहा ॥

सो जब सब थोड़ा मरते मरते लोगों के बीच में से नाश १६  
हा गये, तब यहोवा ने मुझ से कहा, अब मोआब १७, १८  
के सवाने अर्थात् आर का लाध । और जब तू अम्मो १९  
नियों के साम्भने जाकर उन के निकट पहुंचे तब उन को  
न सताना और न छेड़ना क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश  
में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूंगा क्योंकि मैं ने  
उसे लुतियों के अधिकार में कर दिया है । वह देश भी २०  
रपाइयां का गिना जाता था क्योंकि अगले दिनों में  
रपाईं जिन्हें अम्मोनां जमलुम्मी कहते थे सो वहां बसे  
हुए थे । वे भी अनाकियों के समान बलवान् और लंबे २१  
लंबे और गिनती में बहुत थे पर यहोवा ने उन को  
अम्मोनियों के साम्भने से नाश कर डाला और उन्होंने उन  
को उस देश से निकाल दिया और उन के स्थान पर  
आप बस गये । जैसे कि उस ने सेईर के निवासी एसावियों २२  
के साम्भने से होरियों को नाश किया और उन्होंने उन  
को उस देश से निकाल दिया और आज ला उन के स्थान  
पर वे आप बसे हैं । वैसा ही अश्विय को जो अज्जा २३  
नगर लो गावों में बसे हुए थे कप्तारियों ने जो कतार से  
निकले थे नाश किया और उन के स्थान पर आप बस  
गये । अब तुम लोग उठ कर कूच करा और अर्नोन के २४  
नाले के पार चलो सुन मैं देश समंत हेराबोन के राजा  
एमोरी सीहोन को तेरे हाथ में कर देता ॥ सो उस देश  
को अपने अधिकार में लेने का आरम्भ कर और उस  
राजा से युद्ध छेड़ दे । जितने लोग धरती भर पर २५  
रहते हैं उन सभी के मन में मैं आज के दिन से तेरे कारण  
डर और धरधराहट समवाने लगूंगा सो वे तेरा समाचार  
पाकर तेरे डर के मारे कापेंगे और पीड़ित होंगे ॥

सो मैं ने कदेमात नाम जंगल से हेराबोन के राजा २६  
सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने का दूत भेजे  
कि, मुझ अपने देश में होकर जाने दे मैं सड़क २७  
सड़क चला जाऊंगा दाहने बाएं न मुड़ूंगा । रुपया २८  
लेकर मेरे हाथ भोजनवस्तु देना कि मैं खाऊं और पानी

भी रुपया लेकर मुझ को देना कि मैं पीऊं केवल मुझे  
 २९ पांव पांव चले जाने दे। जैसा सेईर के निवासी एसा-  
 वियों ने और आर के निवासी मोआवियों ने मुझ से  
 किया वैसा ही तू भी मुझ से कर इस रीति मैं यर्दन पार होकर  
 ३० उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता  
 है। पर हेशबोन के राजा सीहोन ने हम को अपने देश  
 में होकर चलने देने से नाह किया क्योंकि तेरे परमेश्वर-  
 यहोवा ने उस का चित्त कठोर और उस का मन मगरा  
 कर दिया था इसलिये कि उस को तेरे हाथ में कर दे  
 ३१ जैसा आज प्रगट है। और यहोवा ने मुझ से कहा सुन  
 में देश समेत सीहोन को तेरे वश में कर देने पर तू उस  
 ३२ देश को अपने अधिकार में लेने का आरंभ कर। तब  
 सीहोन अपनी सारी सेना पपेत निकल आया और हमारा  
 ३३ साम्हना करके युद्ध करने को यहस लों चढ़ आया। और  
 हमारे परमेश्वर यहोवा ने उस को हम से हरा दिया  
 और हम ने उस को पुत्रों और सारी सेना समेत मा-  
 ३४ लिया। और उसी समय हम ने उस के सारे नगर ले लिये  
 और एक एक वैसे हुए नगर का खियों और बालबच्चों  
 ३५ समेत यहां लों सत्यानाश किया कि कोई न छूटा। पर  
 मशुओं को हम ने अपना कर लिया और जीते हुए नगरों  
 ३६ को लूट भी हम ने ले ली। अनोन के नाले की छोर  
 वाले अगेएर नगर से लेकर और उस नाले में के नगर  
 से लेकर गिलाद लों कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो  
 हमारे साम्हने ठहर सकता, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा  
 ३७ ने सभी को हमारे वश कर दिया। पर तुम अम्मोनियों  
 के देश के निकट बरन यम्बोक नदी के उस पार जितना  
 देश है और पहाड़ी देश के नगर जहां जहां जाने से  
 हमारे परमेश्वर यहोवा ने हम को बर्जा वहां न गये ॥

३. तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग ने

चढ़ चले और बाशान का ओग  
 नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा साम्हना  
 २ करने को निकल आया कि एद्रेई में युद्ध करे। तब  
 यहोवा ने मुझ से कहा उस से मत डर क्योंकि मैं उस  
 को सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किये देता हूं  
 और जैसा तू ने हेशबोन के निवासी एमोनियों के राजा  
 ३ सीहोन से किया है वैसा ही उस से भी करना। तो  
 हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के  
 राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया और हम उस  
 को यहां लों मारते रहे कि उस का कोई भी बचा न रहा।  
 ४ उसी समय हम ने उस के सारे नगरों को ले लिया कोई  
 ऐसा नगर न रहा जिसे हम ने उन से न ले लिया हो

इस रीति अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग के  
 राज्य में था और उस में साठ नगर थे सो हमारे वश से  
 आ गया। ये सब नगर गढ़वाले थे और उन के ऊंची ५  
 ऊंची शहरपनाह और फाटक और बड़े थे और इन को  
 छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। और ६  
 जैसा हम ने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया  
 था वैसा ही हम ने इन नगरों से भी किया अर्थात् सब  
 वैसे हुए नगरों का खियों और बालबच्चों समेत सत्यानाश  
 कर डाला। पर सब धरैले पशु और नगरों की लूट हम ७  
 ने अपना कर ली। यों हम ने उस समय यर्दन के इस  
 पार रहनेहारे एमोनियों के दोनों राजाओं के हाथ से ८  
 अनोन के नाले से लेकर हेमोन पर्वत तक का देश ले  
 लिया। हेमोन को सीदानी लोग खियों और एमारी लोग ९  
 सनीर कहते हैं। समथर देश के सब नगर और सारा १०  
 गिलाद और सत्का और एद्रेई तक जो ओग के राज्य  
 के नगर थे सारा बाशान हमारे वश में आ गया। जो रपाई ११  
 रह गये थे उन में से केवल बाशान का राजा ओग रह  
 गया था उस की चारपाई जो लोहे की है सो तो अम्मो-  
 नियों के रज्ज्व नगर में पड़ी है, साधारण पुरुष के हाथ के लेखे  
 से उस की लम्बाई नौ हाथ की और चौड़ाई चार हाथ  
 की है। जो देश हम ने उस समय अपने अधिकार में ले १२  
 लिया सो यह है अर्थात् अनोन के नाले के किनारेवाले  
 अगेएर नगर से ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी  
 देश का आधा भाग जिसे मैं ने रूबेनियों और गादियों  
 को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा १३  
 बाशान अर्थात् अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में  
 था इन्हें मैं ने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा  
 बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है। और मनश्शेई १४  
 याईर ने मशूरियों और माकावासियों के सिवानों लों  
 अर्गोब का सारा देश ले लिया और बाशान के नगरों का  
 नाम अपने नाम पर हम्बोत्याईर रक्खा और वही नाम १५  
 आज ल बना है। और मैं ने गिलाद देश माकीर को १६  
 दे दिया। और रूबेनियों और गादियों को मैं ने गिलाद  
 से ले अनोन के नाले लों का देश दे दिया अर्थात् उस  
 नाले के नीचे उन का सिवाना ठहराया और यम्बोक नदी  
 लों जो अम्मोनियों का सिवाना है, और किन्नेरेत से ले १७  
 पिसगा की सलामी के नीचे के अराबा के ताल लों जो  
 खारा ताल भी कहावता है अराबा और यर्दन की पूरब  
 ओर का सारा देश भी मैं ने उन्हीं को दे दिया ॥

और उस समय मैं ने तुम्हें यह आज्ञा दी कि तुम्हारे १८  
 परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे

(१) अर्थात् याईर की बस्तियां ।



- अपने अधिकार में रखे। तुम सब योद्धा हथियारबंध  
 १६ होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे पार चलो । पर  
 तुम्हारी स्त्रियाँ और बालबच्चे और पशु जिन्हें मैं जानता  
 हूँ कि बहुत से हैं सो सब तुम्हारे नगरों में जो मैं ने  
 १० तुम्हें दिये हैं रह जाएँ । और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों  
 को वैसा विश्राम दे जैसा कि उस ने तुम को दिया है  
 और वे उस देश के अधिकारी हो जाएँ जो तुम्हारा परमेश्वर  
 यहोवा उन्हें यर्दन पार नेता है तब तुम भी अपने  
 अपने अधिकार की भूमि पर जाँ मैंने तुम्हें दी है लौटोगे ।  
 २१ फिर मैं ने उसी समय यहोशू से चिन्ताकर कहा, तू ने  
 अपनी आँखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन  
 दोनों राजाओं से क्या क्या किया है वैसा ही यहोवा उन  
 २२ सब राज्यों से करेगा जिन में तू पार होकर जाएगा । उन  
 से न डरना क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़नेवाला है  
 सो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है ॥
- २३ उसी समय मैं ने यहोवा से गिड़गिड़ाकर बिनती  
 २४ की कि, हे प्रभु यहोवा तू अपने दास को अपनी महिमा  
 और बलवन्त हाथ दिखाने लगा है स्वर्ग में और पृथिवी  
 पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के  
 २५ कर्म कर सके । सो मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के  
 उस उत्तम देश को अर्थात् उस उत्तम पहाड़ और लया-  
 २६ नोन को भी देखने पाऊँ । पर यहोवा तुम्हारे कारण मुझ  
 से रूठ गया और मेरी न सुनी बरन यहोवा ने मुझ से  
 २७ करना । पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूरब  
 पच्छिम उत्तर दक्खिन चारों ओर दृष्टि करके उस देश  
 को देख ले क्योंकि तू इस यर्दन पार जाने न पाएगा ।  
 २८ और यहोशू को आशा दे और उसे हियाव बंधाकर दृढ़  
 कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा  
 और जो देश तू देखेगा उस को वही उन का निज भाग  
 २९ करा देगा । सो हम बेतपोर के साम्हने की तराई में रहे ॥

(मूसा का उपदेश)

#### ४. अब हे इस्राएल जो जो विधि और

नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता  
 हूँ उन्हें सुन लो इसलिये कि उन पर चलो जिस से तुम  
 जात रहे और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर  
 यहोवा तुम्हें देता है उस में जाकर उस के अधिकारी हो  
 २ जाओ । जो आशा मैं तुम को सुनाता हूँ उस में न तो  
 कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना तुम्हारे परमेश्वर  
 यहोवा की जो जो आशा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम  
 १ मानना । तू ने तो अपनी आँखों से देखा है कि पार के  
 बाल के कारण यहोवा ने क्या क्या किया अर्थात् जितने

मनुष्य बालपार के पीछे हो लिये थे उन सभी का तुम्हारे  
 परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर  
 डाला । पर तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ साथ ४  
 बने रहे सो सब के सब आज जीते हो । सुन मैं ने तो ५  
 अपने परमेश्वर यहोवा की आशा के अनुसार तुम्हें विधि  
 और नियम सिखाये हैं कि जिस देश के अधिकारी होने  
 जाने हे उस में तुम उन के अनुसार चलो । सो तुम उन ६  
 को धारण करना और मानना क्योंकि देश देश के लोगों  
 के लेश्वे तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रगट होगी  
 अर्थात् वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ७  
 यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है । देखो कौन ८  
 ऐसी बड़ी जाति है जिस का देवता उस के ऐसे समीप  
 रहता हा जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा जब कि हम उस  
 को पुकारते हैं । फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिस के ९  
 पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हों जैसी कि यह  
 सारी व्यवस्था जो मैं आज तुम को सुनाता हूँ । केवल १०  
 यह अवश्य है कि तुम अपने विषय सचेत रहो और  
 अपने मन की बड़ी चौकसी करा न हो कि जो जो बातें  
 तुम ने अपनी आँखों से देखीं उन को बिसरा दे वा जीवन  
 भर में कभी अपने मन से उतरने दो बरन तुम उन्हें अपने  
 ११ बेटों पोतों को जताया करना । विशेष करके उस १२  
 की बातें जिस में तू हारैब के पास अपने परमेश्वर यहोवा  
 के साम्हने खड़ा था जब यहोवा ने मुझ से कहा था कि  
 उन लोगों के मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने  
 १३ बचन सुनाऊँ इसलिये कि वे सीखें कि जितने दिन  
 पृथिवी पर जीते रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और  
 अपने लड़के बालों को भी सिम्घाएँ । तब तुम सभी १४  
 जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए उस पर्वत पर की लौ  
 आकाश लो पहुँचती थी और उस पर अन्धकार और  
 बादल और धार अन्धकार थाया हुआ था । तब यहोवा ने १५  
 उस आग के बीच में से तुम से बातें कीं बातों का शब्द  
 तो तुम को सुन पड़ा पर रूप कुछ न देख पड़ा केवल  
 शब्द ही मन पड़ा । और उस ने तुम को अपनी वाचा के १६  
 दसों बचन बताकर उन के मानने की आशा दी और  
 उन्हें पत्थर की दो गटियाँ पार लिख दिया । और मुझ १७  
 को यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने  
 की आशा दी इसलिये कि जिस देश के अधिकारी होने  
 को तुम पार जाने पर हो उस में तुम उन को माना करो ।  
 सो तुम अपने विषय बहुत सचेत रहो क्योंकि जब १८  
 यहोवा ने तुम से हारैब पर्वत पर आग के बीच में से  
 बातें कीं तब तुम को कोई रूप न देख पड़ा । कहीं ऐसा १९  
 न हो कि तुम घिगड़क चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे २०

पृथिवी पर चलनेहारे किसी पशु चाहे आकाश में उड़ने-  
 १८ हारे किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रंगनेहारे किसी जन्तु  
 १९ चाहे पृथिवी के जल में रहनेहारी किसी मछली के रूप  
 की कोई मूर्ति खोद कर बनाओ, वा जब तुम आकाश  
 की ओर आँखें उठाकर सूर्य चंद्रमा तारों को अर्थात्  
 आकाश का सारा गण देखो तब बहक कर उन्हें दण्ड-  
 २० वन और उन को सेवा करने लगे जिन को तुम्हारे परमेश्वर  
 यहोवा ने धरती पर के सब देशवालों के लिये रक्खा  
 है । और तुम को यहोवा लोहे के भट्टे के सरीखे मिस्र देश  
 में निकाल ले आया है इसलिये कि तुम उस की प्रजासूची  
 २१ निज भाग उहरो जैसा आज प्रगट है । फिर तुम्हारे कारण  
 यहोवा ने मुझ से कोप करके यह किया खाई कि तू  
 यर्दन पार जाने न पाएगा और जो उत्तम देश इस्राएलियों  
 का परमेश्वर यहावा उन्हें उन का निज भाग कर के देता  
 २२ है उस में तू प्रवेश करने न पाएगा । सो मुझे इसी देश  
 में मारना है मैं तो यर्दन पार नहीं जा सकता पर तुम  
 पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे ।  
 २३ सो अग्ने विषय सचेत रहो न हो कि तुम उस वाचा को  
 बिसगकर जा तुम्हारे परमेश्वर यहावा ने तुम से बांधी है  
 किसी वस्तु का मूर्ति खोदकर बनाओ जा तरे परमेश्वर  
 २४ यहावा ने तरे लिये बरजी है । क्योंकि तैरा परमेश्वर  
 यहोवा भस्म करनेहारी आग मा जल उठनेहारा ईश्वर है ॥  
 २५ यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने  
 पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर  
 किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ और इस  
 २६ रीति अपने परमेश्वर यहावा के लगे बुराई करके उसे  
 बिसिया दो, तो मैं आज आकाश और पृथिवी को तुम्हारे  
 विरुद्ध साक्षात् करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी  
 होने के लिये तुम यर्दन पार जाने पर हो उस में से तुम  
 २७ जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने न  
 पाओगे वरन पूरी रीति से सत्यानाश हो जाओगे । और  
 यहोवा तुम को देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा  
 और जिन जातियों के बीच यहोवा तुम को पहुँचाएगा उन  
 २८ में तुम थोड़े ही रह जाओगे । और वहाँ तुम मनुष्य के  
 बनाये हुए लकड़ा और पथर के देवताओं की सेवा करोगे  
 २९ जो न देखने न सुनते न खाते न सूँघते हैं । पर वहाँ भी  
 यदि तुम अपने परमेश्वर यहावा का ढूँढ़ा तो उसे अपने  
 सारे मन और सारे जीव से पूछने पर वह तुम्हें मिलेगा ।  
 ३० अन्त के दिनों में जब तू संकट में पड़ेगा और ये सब  
 विपत्तियां तुझ पर आ पड़ेंगी तब तू अपने परमेश्वर यहावा

की ओर फिरेगा और उस की मानने लगेगा । और तेरा ३१  
 परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है वह तुझे धोखा न देगा  
 न नाश करेगा और जो वाचा उस ने तरे पितरों से  
 ३२ करिया खाकर बांधी है उस को न भूलेगा । देखो जब से  
 परमेश्वर ने मनुष्य को सिरजकर पृथिवी पर रक्खा तब  
 से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन लां की बातें पूछ  
 और आकाश की एक छोर से दूसरी छोर लां की बातें  
 पूछ क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई वा सुनने में आई है ?  
 ३३ क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच  
 में से आती हुई सुन कर जीती रही जैसे कि तू ने सुनी है ?  
 ३४ फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के  
 बीच से निकालने को कहर बांधकर परीक्षा और चन्ह  
 और चमत्कार और युद्ध और बली हाथ और बढ़ाई हुई  
 ३५ भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किये जैसे तुम्हारे परम-  
 श्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किये ? यह सब तुझ  
 को दिखाया गया इसलिये कि तू जान रक्खे कि यहोवा  
 ही परमेश्वर है उस का छोड़ और कोई है ही नहीं ।  
 ३६ आकाश में से उस ने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे  
 शिक्षा दे और पृथिवी पर उस ने तुझे अपनी बड़ी आग  
 ३७ दिखाई और उस के बचन आग के बीच में से आते तुझे  
 सुन पड़े । और उस ने जो तुम्हारे पितरों से प्रेम  
 ३८ रक्खा इस कारण उन के पीछे उन के वंश को चुन  
 लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा  
 मिस्र में इस लिये निकाल लाया, कि तुझ से बड़ी और  
 ३९ सामर्थी जातियों का तरे आगे से निकालकर तुझे उन के  
 देश में पहुँचाए और उसे तरा निज भाग कर दे जैसा  
 आज के दिन देख पक्ता है । सो आज जान ले और अपने  
 ४० मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे  
 पृथिवी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई नहीं । और तू  
 उस की वाधियाँ और आशाओं का जो मैं आज तुझे  
 सुनाता हूँ मान इस लिये कि तैरा और तरे पीछे तरे वंश  
 का भी भला हो और जो देश तैरा परमेश्वर यहोवा तुझे  
 देता है उस में तरे दिन बहुत वरन अनन्त हों ॥

तब मूसा ने यर्दन के पार पूरब और तीन नगर ४१  
 अलग किये, इसलिये कि जो कोई बिन जाने और ४२  
 बिना हाले से बर रक्खे अपने किसी भाई को मार डाले  
 सो उन में से किसी नगर में भाग जाए और भाग कर  
 ४३ जीता भचे अर्थात् रुबेनियों का बंसर नगर जो जंगल  
 के समथर देश में है और गादियों के गिलाद का रामात  
 और मनशेइया के भाशान का गोलान ॥

फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएलियों को दी सो यह ४४  
 है । ये वही चिंतानियाँ और नियम हैं जिन्हें मूसा ने ४५

(१) मूल में पृथिवी के नीचे जल में । (२) मूल में, बाँट दिया ।

इस्राएलियों को तब कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले  
 ४६ थे अर्थात् यर्दन के पार बेतपोर के साम्हने की तराई में  
 ४७ एमारियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन के देश में जिस  
 उन्होंने ने उस के देश को और बाशान के राजा ओग के  
 देश को अपने वश में कर लिया । यर्दन के पार सूर्योदय  
 का ओर रहनेहारे एमारियों के राजाओं के ये देश थे ।  
 ४८ यह देश अर्नान के नाले की छोरवाले अरोएर से ले  
 ४९ सीहोन जो हर्मोन भी कहावला है, उस पर्वत लों का सारा  
 देश और पिसगा की सलामी के नीचे के अराबा के  
 ताल लों यर्दन गार पूरब ओर का सारा अराबा है ॥

**५. मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर**  
 कहा हे इस्राएलियो जा जो विधि

- और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं सो सुनो इसलिये  
 २ कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो । हमारे  
 परमेश्वर यहावा ने तो हेरेब पर हम से वाचा बान्धी ।  
 ३ इस वाचा को यहावा ने हमारे पितरों से नहीं हम ही से  
 ४ बन्धाया जो सब के सब आज यहां जीते हुए हैं । यहावा  
 ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से  
 ५ आम्हने साम्हने बातें कीं । उस आग के डर के मारे तुम  
 पर्वत पर न चढ़े सो मैं यहावा के और तुम्हारे बीच उस  
 का वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा तब उस ने कहा,  
 ६ तेरा परमेश्वर यहावा जो तुम्हे दासत्व के घर अर्थात्  
 मिस्र देश में से निकाल लाया है सो मैं हूं ॥  
 ७ तुम्हे छोड़ दूसरी को परमेश्वर करके न मानना ॥  
 ८ तू अपने लिये कोई मूर्ति खोदकर न बनाना न  
 किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में वा पृथिवी पर वा  
 ९ पृथिवी के जल में है । तू उन को दण्डवत् न करना न  
 उन की उपासना करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहावा  
 जलन रखनेहारा ईश्वर हूं और जो मुझ से बैर रखते हैं  
 उन के बेटा पोता और परपोता को पितरों का दण्ड दिया  
 १० करता हूं, और जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं  
 का मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं ॥  
 ११ अपने परमेश्वर यहावा का नाम व्यर्थ न लेना  
 क्योंकि जो यहावा का नाम व्यर्थ ले वह उन को  
 निर्दोष न ठहराएगा ॥  
 १२ विश्रामदिन को मानकर पवित्र रखना जैसे तेरे परमे-  
 १३ श्वर यहावा ने तुम्हे आज्ञा दी । छः दिन तो परिश्रम

(१) वा मेरे साम्हने पराये देवताओं को न मानना ।

(२) मूल में पृथिवी के नीचे के जल में ।

(३) वा भूठी बात पर ।

करके अपना साग कामकाज करना । पर सातवां दिन १४  
 तेरे परमेश्वर यहावा के लिये विश्रामदिन है उस में न  
 तू किसी भान्ति का कामकाज करना न तेरा बेटा न तेरी  
 बेटा न तेरा दास न तेरी दासी न तेरा बैल न तेरा  
 गदहा न तेरा कोई पशु न कोई परदेशी भी जो तेरे  
 फाटकों के भीतर हो जिस से तेरा दास और तेरी दासी  
 तेरी नाई सुस्ताए । और इस बात को स्मरण रखना कि १५  
 मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर  
 यहावा तुम्हे बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा  
 निकाल लाया इस कारण तेरा परमेश्वर यहावा तुम्हे  
 विश्रामदिन मानने की आज्ञा देता है ॥

अपने पिता और अपनी माता का आदर करना १६  
 जैसे कि तेरे परमेश्वर यहावा ने तुम्हे आज्ञा दी जिस से  
 जा देश तेरा परमेश्वर यहावा तुम्हे देता है उस में तू  
 बहुत दिन लों रहने पाए और तेरा भला हो ॥

खून न करना ॥ १७

और व्यभिचार न करना ॥ १८

और चोरी न करना ॥ १९

और किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना ॥ २०

और न किसी की स्त्री का लालच करना और न २१  
 किसी के घर का लालच करना न उस के खेत का न  
 उस के दास का न उस की दासी का न उस के  
 बल गदहे का न उस की किसी वस्तु का लालच  
 करना ॥

ये ही वचन यहावा ने उस पर्वत पर आग और २२  
 बादल और धार अन्धकार के बीच में से तुम्हारी सारी  
 मण्डली से पुकारके कहे और इस से अधिक और कुछ  
 न कहा और उन्हें उस ने पत्थर की दो पट्टियाओं पर  
 लिखकर मुझे दे दिया । जब पर्वत आग से जल रहा २३  
 था और तुम ने उस शब्द का अन्धियारे के बीच में से  
 आते सुना तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य  
 मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मर पास आये । और २४  
 तुम कहने लग हमारे परमेश्वर यहावा ने हम को अपना  
 तेज और महिमा दिखाई है और हम ने उस का शब्द  
 आग के बीच में से आते हुए सुना आज के दिन हम  
 को जान पड़ा है कि परमेश्वर मनुष्य से बात करता है  
 तौभी मनुष्य जीता रहता है । अब हम क्या मर जाएं २५  
 क्योंकि इस बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे और याद  
 हम अपने परमेश्वर यहावा का शब्द फिर सुन तो मर  
 जाएंगे । सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारी २६  
 नाई जीवने और आग के बीच में से बोलते हुए परमे-  
 श्वर का शब्द सुनकर जीता बचा हो । तू समीप जा २७

और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहीवा कहे सो सुन ले फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहीवा कहे सो हम से कहना और  
 २८ हम सुनकर उसे मानेंगे । जब तुम मुझ से ये बात कह रहे थे तब यहीवा ने सुना और उस ने मुझ से कहा कि इन लोगों ने जो जो बातें तुझ से कही हैं सो मैं ने सुनीं  
 २९ इन्हीं ने जो कुछ कहा सो भला कहा । भला होता कि उन का मन सदा ऐसा ही बना रहे कि मेरा भय मानते और मेरी सब आशाओं पर चलते रहें जिस से उन की  
 ३० और उन के वंश की भलाई सदा लों बनी रहे । जाकर  
 ३१ उन से कह कि अपने अपने डेरे में फिर जाओ । पर तू यहीं मेरे पास खड़ा होना और मैं वे सारी आशाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुम्हें उन को सिखाना होगा तुझ से कहूंगा इसलिये कि वे उन्हें उस देश में  
 ३२ जिस का अधिकार मैं उन्हें देने पर हूं मानें । सो तुम अपने परमेश्वर यहीवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी  
 ३३ करना, न तो दहिने मुड़ना और न बाएं । जिस माग पर चलने का आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहीवा ने तुम को दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहे । इसलिये कि तुम जीते रहे और तुम्हारा भला हो और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उस में तुम बहुत दिन लों बने रहे ॥

## ६. यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की

तुम्हारे परमेश्वर यहीवा ने इसलिये आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने का  
 २ पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहीवा का भय मानते हुए उस की उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुम्हें सुनाता हूं अपने जीवन भर  
 ३ चलते रहें जिस से तू बहुत दिन लों बना रहे । सो हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने को चौकसी कर इसलिये कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहीवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ ॥

४ हे इस्राएल सुन यहीवा हमारा परमेश्वर है यहीवा एक है । तू अपने परमेश्वर यहीवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना ।  
 ६ और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझ को सुनाता हूं सो तेरे मन में बनी रहें । और तू इन्हें अपने लड़केबालों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते  
 ८ लेटते उठते इन की चर्चा किया करना । और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना और ये तेरी आंखों के  
 ९ बीच टीके का काम दें । और इन्हें अपने अपने

घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना ॥

और जब तेरा परमेश्वर यहीवा तुम्हें उस देश में पहुंचे १० चाए जिस के विषय उस ने इब्राहीम इसहाक और याकूब नाम तेरे पितरों से तुम्हें देने की किरिया खाई और जब वह तुझ को बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तू ने नहीं बनाये, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तू ११ ने नहीं भरे और खुदे हुए कूपें जो तू ने नहीं खोदे और दाख की बरियां और जलपाई के वृक्ष जो तू ने नहीं लगाये ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तृप्त हो, तब सचेत रहना न हो कि तू यहीवा को भूल जाए जो १२ तुम्हें दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निकाल लाया है । अपने परमेश्वर यहीवा का भय मानना उसी की सेवा १३ करना और उसी के नाम की किरिया खाना । तुम पराये १४ देवताओं के अर्थात् अपने चागं आंर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना । क्योंकि तेरा परमेश्वर १५ यहीवा जो तेरे बीच है वह जल उठनेहारा ईश्वर है सो ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहीवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझ को पृथिवी पर से नाश कर डाले ॥

तुम अपने परमेश्वर यहीवा की परीक्षा न करना १६ जैसे कि तुम ने मस्सा में उस की परीक्षा की थी । अपने १७ परमेश्वर यहीवा की आज्ञाओं चितौनियां और विधियों को जो उस ने तुझ को दी हैं सावधानी से मानना । और जो काम यहीवा के लेखे में ठीक और अच्छा है १८ सोई किया करना इसलिये कि तेरा भला हो और जिस उत्तम देश के विषय यहीवा ने तेरे पितरों से किरिया खाई उस में तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे साम्हने से धाकियाए जाएं जैसे कि १९ यहीवा ने कहा था ॥

फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझ से पूछे कि ये २० चितौनियां और विधि और नियम जिन के मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहीवा ने तुम को दी है इन का प्रयोजन क्या है । तब अपने लड़के से कहना कि जब हम २१ मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहीवा बलवन्त हाथ से हम को मिस्र में से निकाल लाया । और यहीवा ने हमारे २२ देखते मिस्र में फिरौन और उस के सारे घराने को दुःख देनेहारे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किये । और हम को २३ वह वहां से निकाल लाया इसलिये कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिस के विषय उस ने हमारे पितरों से किरिया खाई थी इस को हमें दे । और यहीवा ने हमें ये सब २४ विधियां पालने की आज्ञा दी इसलिये कि हम अपने परमेश्वर यहीवा का भय मानें और इस रीति सब दिन

हमारा भला हो और वह हम को जीता रखे जैसे कि २५ आज है । और यदि हम अपने परमेश्वर यहाँवा की दृष्टि में उस की आज्ञा के अनुसार इस सारी आज्ञा के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिये धर्म उहरेगा ॥

७. फिर जब तेरा परमेश्वर यहाँवा तुझे उम देश में जिस के अधिकारी होने को नू जाने पर है पहुंचाए और तेरे साम्हने से हिन्दी गिर्गाशी एमोरा कनानी परिब्जी हिब्बी और यवूसी नाम बहुत सी जातियों को अर्थात् तुम से बढ़ी और सामर्थी २ भातों जातियों का निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहाँवा उन्हें तुम्ह से हरबा दे और तू उन को जीते तब उन्हें पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना उन से न बाचा ३ शोधना और न उन पर दया करना । और न उन से ब्याह शादी करना न तो अपनी बेटी उन के बेटे को ब्याह देना और न उन की बेटी को अपने बेटे के लिये ब्याह ४ होना । क्योंकि वह तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना कराएगी और इस कारण यहाँवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और ५ वह तुम्ह को शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा । उन लोगों में ऐसा बर्ताव करना कि उन की वेदियों को ढा देना उन की लाठों को तोड़ डालना, उन की अशेरा नाम मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उन की खुदी हुई ६ मूर्तियों को आग में जला देना । क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहाँवा की पवित्र प्रजा है यहाँवा ने पृथिवी भर के सब देशों के लोगों में से तुम्ह को चुन लिया है कि तू उस की ७ प्रजा और निज धन ठहरे । यहाँवा ने जो तुम से स्नेह करके तुम को चुन लिया इस का कारण यह न था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे बरन तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे । ८ यहाँवा ने जो तुम को बलवन्त हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरोन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया इस का यही कारण था कि वह तुम से प्रेम रखता है और उम किरिया को भी पूरी करना चाहता ९ था जो उस ने तुम्हारे पितरों से खाई थी । सो जान रख कि तेरा परमेश्वर यहाँवा ही परमेश्वर है वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उस से प्रेम रखते और उस की आज्ञाएँ मानते हैं उन के साथ यह हजार पीढ़ी लो अपनी १० बाँचा पालता और उन पर कर्ण करता रहता है, और जो उस से बैर रखते हैं वह उन के देखते उन से बदला लेकर नाश कर डालता है अपने बैरी के विषय वह विलम्ब न करेगा उस के देखते ही उस से बदला लेगा ।

इसलिये इन आज्ञाओं विधियों और नियमों को जो मैं ११ आज तुम्हें बिलताता हूँ मानने में चौकसी करना ॥

और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और १२ इन पर चलेगो तो तेरा परमेश्वर यहाँवा भी उस कर्णामय बाचा को पालेगा जो उस ने तेरे पितरों से किरिया खाकर बाँधी थी । और वह तुम्ह से प्रेम रखेगा और १३ तुम्हें आशिष देगा और गिनती में बढ़ाएगा और जो देश उस ने तेरे पितरों से किरिया खाकर तुम्ह को देने कहा है उस में वह तेरी सन्तान पर और अन्न नये दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशिष दिया करेगा और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती १४ करेगा । तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वेश होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा । और यहाँवा तुम्ह से सब १५ प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियाँ जिन्हें तू जानता है उन में से किसी को तेरे न उपजाएगा तेरे सब बैरियों ही के उपजाएगा । और देश देश के १६ जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहाँवा तेरे वश में कर देगा तू उन सबों का सत्यानाश करना उन पर तरस की दृष्टि न करना न उन के देवताओं की उपासना करना नहीं तो तू फन्दे में फँस जाएगा । यदि तू अपने १७ मन में सोचे कि वे जातियाँ जो तुम्ह से अधिक हैं सो मैं उन को क्योंकर देश से निकाल सकूँ, तो भी उन से न डरना जो कुछ तेरे परमेश्वर यहाँवा ने फिरोन से और १८ सारे मिस्र से किया उसे भली भाँति स्मरण रखना । जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तू ने अपनी आँखों से देखे और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहाँवा तुम्ह को निकाल लाया उन के अनुसार तेरा परमेश्वर यहाँवा उन सब लोगों से भी जिन से तू डरता है २० करेगा । इस से अधिक तेरा परमेश्वर यहाँवा उन के बीच बरें भी भेजेगा यहाँ लो कि उन में से जो बच कर छिप जायेंगे सो भी तेरे साम्हने से नाश हो जायेंगे । उन से त्रास न खा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहाँवा तेरे २१ बीच है और वह महान और भययोग्य ईश्वर है । तेरा परमेश्वर यहाँवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे २२ निकाल देगा सो तू एक दम से उन का अन्त न कर सकेगा नहीं तो वनैले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे । ताँभी २३ तेरा परमेश्वर यहाँवा उन को तुम्ह से हरबा देगा और जब लो वे सत्यानाश न हो जायें तब लो उन को अति व्याकुल करता रहेगा । और वह उन के राजाओं को तेरे २४ हाथ में करेगा और तू उन का नाम भी धरती पर

से मिटा डालेगा उन में से कोई भी तेरे साम्हने खड़ा न रह सकेगा और अन्त में तू उन्हें सत्यानाश कर डालेगा ।  
 २५ उन के देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना जो चान्दी वा सोना उन पर मढ़ा हो उस का लालच करके न ले लेना नहीं तो तू उस के कारण फँदे में फसेगा क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर  
 २६ यहोवा के लेखे धिनौनी हैं । और कोई धिनौनी वस्तु अपने घर में न ले आना नहीं तो तू भी उस के समान सत्यानाश की वस्तु ठहरेगा वरन उसे सत्यानाश की वस्तु जान कर उस से धिन ही धिन और बैर ही बैर रखना ॥

### ८. जो जो आज्ञा में आज तुम्हें सुनाता हूँ उन

सभों पर चलने की चौकसी करना इसलिये कि तुम जीते और बढ़ते रहो और जिस देश के विषय यहोवा ने तुम्हारे पितरों से किरिया खाई है उस में जाकर उस के अधिकारी हो जाओ । और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा इन चालीस बरसों में तुम्हें सारे मार्ग में इसलिये ले आया है कि वह तुम्हें दीन बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उस की आज्ञाओं को पालेगा वा नहीं । उस ने तुम्हें को दीन बनाया और भूखा होने दिया फिर मान जिसे न तू न तेरे पुरखा जानते थे वही तुम्हें को खिलाया इसलिये कि वह तुम्हें को सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता जो जो वचन यहोवा के मुँह से निकलते हैं उन से वह जीता है । इन चालीस बरसों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले । फिर अपने मन में सोच कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें को ताड़ना देता है । सो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का मानते हुए उस के मार्गों पर चलना और उस का भय मानना । क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें एक उत्तम देश में लिये जाता है जो जल बहती हुई नदियों का और तराइयों और पहाड़ों में निकलते हुए गहिरें गहिरें सोतों का देश है । फिर वह गोहूँ जो दाखलताओं अंजीरों और अनारों का देश है और तेलवाली जलपाई और मधु का भी देश है ।  
 ९ उस देश में अन्न की महंगी न होगी वरन उस में तुम्हें किसी पदार्थ की घटी न होगी वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू ताम्बा खोद कर निकाल

(१) मूल में आकाश के तले से ।

(२) मूल में जिस के पत्थर लोहा है ।

सकेगा । और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देगा उस का धन्य मानेगा । सचेत रह न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को बिसरा कर उस की जो जो आज्ञा नियम और विधि में आज तुम्हें सुनाता हूँ उन का मानना छोड़ दे । ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उन में बसे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चान्दी वरन तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए । तब तेरा मन फूल जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को मूल जाए जो तुम्हें दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निकाल लाया है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज बिषवाले सर्प और बिच्छू हैं और धिना जल के सूखे देश में उस ने तेरे लिये चकमक की चटान से जल निकाला, और तुम्हें जंगल में मान खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा न जानते थे इसलिये कि वह तुम्हें दीन बनाए और तेरी परीक्षा करके अन्त में तेरा भला ही करे । और न हाँ कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुम्हें प्राप्त हुई । पर तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना कि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उस ने तेरे पितरों से किरिया खाकर बांधी थी उस को पूरा करे जैसा आज प्रगट है । यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को बिसरा कर दूसरे देवताओं के पीछे हो ले और उन की उपासना और उन को दरडबत्त करे तो मैं आज तुम को चिता देता हूँ कि तुम निःसंदेह नाश हो जाओगे । जिन जातियों का यहोवा तुम्हारे सन्मुख से नाश करने पर है उन्हीं की नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा को न मानने के कारण नाश हो जाओगे ॥

### ९. हे इस्राएल सुन आज तू यर्दन पार इसलिये

जानेवाला है कि ऐसी जातियों का जो तुम्हें से बड़ी और सामर्थी हैं और ऐसे बड़े नगरों का जिन की शहरपनाह आकाश से बातें करती हैं अपने अधिकार में ले । उन में बड़े बड़े और लम्बे लम्बे लोग अर्थात् अनाकवंशी रहते हैं जिन का हाल तू जानता है और उन के विषय तू ने यह सुना है कि अनाकवंशियों के साम्हने कौन ठहर सकता है । सो आज यह जान रख कि जो तेरे आगे भस्म करनेहारी आग की नाई पार जानेहारा है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है और वह उन का सत्यानाश

(३) मूल में जलते हुए । (४) मूल में आकाश लों गढ़वाले नगरों को ।

करेगा और तेरे साम्हने दबा देगा और तू यहोवा के कहे के अनुसार उन को उस देश से निकाल कर शीघ्र नाश करेगा । जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे साम्हने से धकियाकर निकाल चुके तब यह न सोचना कि यहोवा मेरे धर्म के कारण मुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है बरन उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उन को तेरे साम्हने से निकालता है । तू जो उन के देश का अधिकारी होने को जाने पर है इस का कारण तेरा धर्म वा मन की सिधार्ह नहीं है तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे साम्हने से निकालता है इस का कारण उन की दुष्टता है और यह भी कि जो वचन उस ने इब्राहीम इसहाक और याकूब तेरे पितरों को किरिया खाकर दिया था उस को वह पूरा करना चाहता है । सो यह जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उस का अधिकारी हो सो तेरे धर्म के कारण नहीं देता क्योंकि तू तो हठीली जाति है । इस बात का स्मरण कर और कभी न भूल कि जंगल में तू ने किस किस रीति अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया बरन जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला जब लो तुम इस स्थान पर न पहुँचे तब लो तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आये हो । फिर होरेब के पास भी तुम ने यहोवा को क्रोधित किया और वह कोप करके तुम्हें सत्यानाश करने को उठा । जब मैं उस वाचा की पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुम से बोधी थीं लेने के लिये पर्वत पर चढ़ गया तब चालीस दिन और चालीस रात पर्वत पर रहा मैं ने न तो रोटी खाई न पानी पिया । और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंपा और जितने वचन यहोवा ने पर्वत पर आग के बीच में से उभा के दिन तुम से कहे थे सो सब उन पर लिखे हुए थे । और चालीस दिन और चालीस रात के बीते पर यहोवा ने पत्थर की वे दो वाचा की पटियाएं मुझे दीं । और यहोवा ने मुझ से कहा उठ यहाँ से भट नीचे जा क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन को तू मिस्र से निकाल ले आया है सो बिगड़ गये हैं जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैं ने उन्हें दी थी उस को उन्हें ने भटपट छोड़ दिया है अर्थात् उन्होंने ने एक मूर्ति ढाल कर बना ली है । फिर यहोवा ने मुझ से कहा मैं ने उन लोगों को देखा कि वे हठीली जाति के हैं । सो अब मुझे मत रोक मैं उन्हें सत्यानाश करूँ

(१) मूल में कभी गर्दनवाला । (२) मूल में परमेश्वर की भंगुली ।

(३) मूल में कभी गर्दनवाले ।

और धरती पर से उन का नाम तक मिटा डालूँ और उन से बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुम्हीं से उत्पन्न करूँ । तब मैं घूमकर पर्वत से उतर खला और पर्वत आग से जल रहा था और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियाएं थीं । और मैंने देखा कि तुम ने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया और एक बछड़ा ढालकर बना लिया जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुम को दी थी उस को तुम ने भटपट छोड़ दिया था । सो मैं ने दोनों पटियाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और वे तुम्हारे देखते टुकड़े टुकड़े हो गईं । तब तुम्हारे उस बड़े पाप के कारण जिसे करके तुम ने यहोवा के लेखे में बुराई करने से उसे रिस दिलाई थी मैं यहोवा के साम्हने गिर पड़ा और पहिले की नाईं अर्थात् चालीस दिन और चालीस रात तक न तो रोटी खाई न पानी पिया । मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डरता था जिस से वह तुम्हें सत्यानाश करने को उठा था और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुन ली । और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसे भी सत्यानाश करने को उठा सो उसी समय मैं ने हारून के लिये भी प्रार्थना की । और मैं ने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हुए थे ले आग में ढालकर फेंक दिया और पीस पीसकर चूर चूर कर डाला और उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से उतरी थी । फिर तबेरा और मस्सा और किब्रोतहत्तावा में भी तुम ने यहोवा को रिस दिलाई थी । फिर जब यहोवा ने तुम को कादेशबन से यह कह कर मेजा कि जाकर उस देश के जो मैं ने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ तब भी तुम ने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उस का विश्वास किया न उस की बात मानी । बरन जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहोवा से बलवा करते आये हो । सो मैं यहोवा के साम्हने चालीस दिन और चालीस रात पड़ा रहा इस लिये कि यहोवा ने तुम्हें सत्यानाश करने का कहा था । और मैं ने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा अपना जारूपी निज भाग जिसे तू ने अपने प्रताप से छुड़ा लिया और बलवन्त हाथ बढ़ाकर मिस्र से निकाल लाया है उसे नाश न कर । अपने दास इब्राहीम इसहाक और याकूब की सुधि कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर चिन्त न धर । न हो कि जिस देश से तू हम को निकाल ले आया है उस के लोग यह कहने लगे कि यहोवा जो उन्हें उस देश में जिस के देने का

(४) मूल में आकाश के तले से ।

वचन उन को दिया था पहुँचा न सका और उन से बैर भी रखता था इसी से उस ने उन्हें जंगल में निकालकर २९ मार डाला है । ये तेरी प्रजा और निज भाग हैं और इन को तू अपने बड़े सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल ले आया है ॥

१०. उस समय यहोवा ने मुझ से कहा पहिली

पटियाओं के समान पत्थर की दो और पटियाएँ गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत पर २ चढ़ आ और लकड़ी का एक संदूक बनवा ले । और मैं उन पटियाओं पर वे ही वचन लिखूँगा जो उन पहिली पटियाओं पर थे जिन्हें तू ने तोड़ डाला और तू उन्हें उस ३ संदूक में रखना । सो मैं ने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहिली पटियाओं के समान पत्थर की दो और पटियाएँ गढ़ीं तब उन्हें हाथों में लिये हुए पर्वत ४ पर चढ़ गया । और जो दस वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर आग के बीच में से तुम से कहे थे वे ही उस ने पहिलों के समान उन पटियाओं पर लिखे और उन को ५ मुझ सौंप दिया । तब मैं फिर पर्वत से उतर आया और पटियाओं को अपने बनवाये हुए संदूक में धर दिया और ६ यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रक्खी हुई हैं । तब इस्राएली याकानियों के कूओं से कूच करके मोसेरा लों आये वहां हारून मर गया और उस को वहीं मिट्टी दी गई और उस का पुत्र एलाजार उस के स्थान पर याजक ७ का काम करने लगा । वे वहां से कूच करके गुदगोदा का और गुदगोदा से योतभाता को जो जल बहती हुई ८ नदियों का देश है पहुँचे । उस समय यहोवा ने लेवी गीत्र को इस लिये अलग किया कि वे यहोवा की बाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सन्मुख खड़े होकर उस की सेवाटहल किया करें और उस के नाम से आशीर्वाद ९ दिया करें जैसे कि आज के दिन लो होता है । इस कारण लेवीयों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश वा भाग नहीं मिला यहोवा ही उन का निज भाग है जैसे कि १० तेरे परमेश्वर यहोवा ने उन से कहा था । मैं तो पहिले की नाई उस पर्वत पर चालीस दिन और चालीस रात ठहरा रहा और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुम्हें ११ नाश करने की मनसा छोड़ दी । सो यहोवा ने मुझ से कहा तू इन लोगों की अगुवाई कर कि जिस देश के देने को मैं ने उन के पितरों से किरिया खाकर कहा था उस में वे जाकर उस को अपने अधिकार में कर लें ॥

१२ और अब हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ से इस को छोड़ क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर

यहोवा का भय माने उस के सारे मार्गों पर चले उस से प्रेम रखे और अपने सारे मन और सारे जीव से उस की सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं १३ आज तुम्हें सुनाता हूँ उन को माने जिस से तेरा भला हो । सुन स्वर्ग बरन सब से ऊँचा स्वर्ग भी और पृथिवी १४ और उस में जो कुछ है सो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है । तोभी यहोवा ने तेरे पितरों से स्नेह और प्रेम रखवा १५ और उन के पीछे तुम लोगों को जो उन के बंश हो सारे देशों के लोगों में से चुन लिया जैसा कि आज के दिन है । सो अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले १६ न हो । क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का १७ परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु महान् पराक्रमी और भय-योग्य ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है । वह बपमूए और विषया का न्याय चुकाता १८ और परदेशियों से प्रेम करके उन्हें भोजन और बख्त देता है । सो तुम परदेशियों से प्रेम रखना क्योंकि तुम भी १९ मिश्रदेश में परदेशी थे । अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना उसी की सेवा करना उसी के बने रहना और उसी के नाम की किरिया खाना । वही तेरे स्तुति करने के २१ योग्य है<sup>२</sup> और वही तेरा परमेश्वर है जिस ने तेरे साथ वे बड़े और भयानक काम किये हैं जिन्हें तू ने अपनी आंखों से देखा है । तेरे पुरखा तो मिस्र जाने के समय २२ सत्तर ही मनुष्य थे पर अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है ॥

११. सो तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना और जो कुछ उस ने तुम्हें

सौंपा है उस का अर्थात् उस की विधियों नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना । सो तुम आज सोच २ रक्खो मैं तो तुम्हारे बालबच्चों से नहीं कहता जिन्होंने ने न तो कुछ देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बल-बन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में ३ वहां के राजा फिरौन को क्या क्या चिन्ह दिखाये और उस के सारे देश में क्या क्या काम किये, और उस ने ४ मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया अर्थात् जय वे तुम्हारा पीछा किये हुए थे तब उस ने उन को लाल समुद्र में डुबोकर कैसे नाश कर डाला कि आज तक उन का पता नहीं, और तुम्हारे इस स्थान में पहुँचने ५ लो उस ने जंगल में तुम से क्या क्या किया, और उस ने ६

(१) मूल में कड़ी गर्दनवाले । (२) मूल में, वही तेरी स्तुति है ।



रूबेनी एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया अर्थात् पृथिवी ने अपना मुंह पसारके उन को बरानों डेरों और सब अनुचरों समेत सब इस्त्राएलियों के देखते कैसे निगल लिया । पर यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुम ने अपनी आंखों से देखा है । इस कारण जितनी आज्ञाएँ मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सभी को माना करना इसलिये कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिस के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो प्रवेश करके उस के अधिकारी हो जाओ, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की किरिया यहोवा ने तुम्हारे पितरों से खाई और उस में दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं । देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो सो मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकल आये हो जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से बरदा बनाकर सींचते थे । पर जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो सो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है । वह ऐसा देश है जिस की तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है बरन बरस के आदि से ले अन्त लों तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर लगातार लगी रहती है ॥

और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने सारे मन और सारे जीव के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखते हुए उस की सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अन्त दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर किया करूँगा जिस से तू अपना अन्न नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा । और मैं तेरे पशुओं के लिये तेरे मैदान में घास उपजाऊँगा और तू पेट भर भर खा सकेगा । सो अपने विषय सचेत रहो न हो कि तुम अपने मन में धोखा खाओ और बहक कर दूसरे देवताओं की उपासना और उन को दण्डवत् करने लगे, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बन्द कर दे और भूमि अपनी उपज न दे और तुम उस उत्तम देश में से जाँ यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नाश हो जाओ । सो तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और जीव में धारण किये रहना और चिन्हानी करके अपने हाथों पर बाधना और वे तुम्हारी आंखों के बीच टीके का काम दें । और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लोटते उठते इन की चर्चा करके अपने लड़केबालों को

(१) मूल में बीच में ।

सिखाया करना । और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के याजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इस लिये कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पितरों से किरिया खाकर कहा कि मैं उसे तुम्हें दूँगा उस में तुम्हारे और तुम्हारे लड़केबालों के दिन बहुत हों बरन जब लौ पृथिवी के ऊपर का आकाश बना रहे तब लौ वे भी बने रहें । सो यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उस के सारे मार्गों पर चलो और उस के बने रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे । जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव पड़ें वे सब तुम्हारे हो जाएँगे अर्थात् जंगल से लवानोन तक और परात नाम महानद से ले पश्चिम के समुद्र लों तुम्हारा सिवाना होगा । तुम्हारे साम्हने कोई भी खड़ा न रह सकेगा क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ें उस सब पर रहनेहारों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण डर और थरथराहट उपजाएगा ॥

सुनो मैं आज के दिन तुम को आशिष और स्नाप दोनों दिखता हूँ । अर्थात् यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशिष होगी । और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को न मानो और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लो जिन्हें तुम नहीं जानते तो तुम पर स्नाप पड़ेगा ॥

और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में पहुँचाए जिस के अधिकारी होने को तू जाने पर है तब आशिष गरीज्जीम पर्वत पर से और स्नाप एबाल पर्वत पर से सुनाना । क्या वे यर्दन के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिल्याल के साम्हने मोरे के बाज दृक्षों के पास नहीं हैं । तुम तो यर्दन पार इसी लिये जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उस के अधिकारी हो जाओ और तुम उस के अधिकारी होकर उस में बास करोगे । सो जितनी विधियाँ और नियम मैं आज तुम को सुनाता हूँ उन सभी के मानने में चौकसी करना ॥

**१२. जो देश तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने का दिया है उस में जब लों तुम भूमि पर जीते रहो**

(१) मूल में पर्वत पर रखता ।

तब लो इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी  
 २ करना । जिन जातियों के तुम अधिकारी होंगे उन के  
 लोग ऊँचे ऊँचे पहाड़ों वा टीलों पर वा किसी भाँति के  
 हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की  
 ३ उपासना करते हैं उन सभीको तुम पूरी रीति से नाश कर  
 डालना । उन की वेदियों को टा देना उन की लाठों को  
 तोड़ डालना उन की अशोरा नाम मूर्तियों को आग में  
 जला देना और उन के देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों  
 ४ को काटकर गिरा देना कि उस देश में से उन के नाम  
 तक मिट जाएँ । फिर जैसे वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर  
 ५ यहोवा के लिये वैसे न करना । बरन जो स्थान तुम्हारा  
 परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि  
 वहाँ अपना नाम बनाये रखने उस के उसी निवासस्थान  
 ६ के पास जाया करना । और वहीं तुम अपने होमबलि  
 मेलबलि दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की  
 वस्तुएँ और स्वेच्छाबलि और गायबैलों और भेड़बकरियों  
 ७ के पहिलौठे ले जाया करना । और वहीं तुम अपने पर-  
 मेश्वर यहोवा के साम्हने भोजन करना और अपने अपने  
 घराने समेत उन सब कामों पर जिन में तुम ने हाथ  
 लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की  
 ८ आशिष मिली हो आनन्द करना । जैसे हम आजकल  
 यहाँ जो काम जिस को भावता है सोई करते हैं वैसे तुम  
 ९ न करना । जो विश्रामस्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा  
 तुम्हारे भाग में देता है वहाँ तुम अब लो तो नहीं पहुँचे ।  
 १० पर जब तुम यर्दन पार जाकर उस देश में जिस के भागी  
 तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है वस जाओ और  
 वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे  
 ११ और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा पर-  
 मेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिये  
 चुन ले उसी में तुम अपने होमबलि मेलबलि दशमांश  
 उठाई हुई भेंट और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएँ  
 जो तुम यहोवा के लिये संकल्प करोगे निदान जितनी  
 वस्तुओं की आज्ञा मैं तुम को सुनाता हूँ उन सभी को  
 १२ वहीं ले जाया करना । और वहाँ तुम अपने अपने बेटे  
 बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा  
 के साम्हने आनन्द करना और जो लेवीय तुम्हारे फाटकों  
 में रहे वही भी आनन्द करे क्योंकि उस का तुम्हारे संग कोई  
 १३ निज भाग वा अंश न होगा । सचेत रह कि तू अपने  
 होमबलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न  
 १४ चढ़ाए । जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वहीं  
 अपने होमबलियों को चढ़ाया करना और जिस जिस काम  
 की आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उस को वहीं करना ।

पर तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा १५  
 और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशिष के  
 अनुसार पशु मारके खा सकेगा शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य  
 दोनों खा सकेंगे जैसे कि चिकारे और हरिण का मांस ।  
 पर उस का लोहू न खाना उसे जल की नाईं भूमि पर १६  
 उँडेल देना । फिर अपने अन्न वा नये दाखमधु वा १७  
 टटके तेल का दशमांश और अपने गायबैलों वा भेड़-  
 बकरियों के पहिलौठे और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु  
 और अपने स्वेच्छाबलि और उठाई हुई भेंट अपने सब  
 फाटकों के भीतर न खाना, उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा १८  
 के साम्हने उसी स्थान पर जिस को वह चुने अपने बेटे  
 बेटियों और दास दासियों के और जो लेवीय तेरे फाटकों  
 के भीतर रहेंगे उन के साथ खाना और तू अपने पर-  
 मेश्वर यहोवा के साम्हने अपने सब कामों पर जिन में  
 हाथ लगाया हो आनन्द करना । सचेत रह कि जब लो १९  
 तू भूमि पर जीता रहे तब लो लेवीयों को न छोड़ना ॥

जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार २०  
 तेरा देश बढ़ाए और तेरा जी मांस खाने चाहे और तू  
 सोचने लगे कि मैं मांस खाऊँगा तब जो मांस तेरा जी  
 चाहे सो खा सकेगा । जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा २१  
 अपना नाम बनाये रखने के लिये चुन ले वह यदि तुम्हें  
 से बहुत दूर हो तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने  
 तुम्हें दी हों उन में से जो कुछ तेरा जी चाहे सो मेरी  
 आज्ञा के अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा  
 सकेगा । जैसे चिकारे और हरिण का मांस खाया जाता २२  
 है वैसे ही उन को भी खा सकेगा शुद्ध अशुद्ध दोनों  
 प्रकार के मनुष्य उन का मांस खा सकेंगे । पर उन का २३  
 लोहू किसी भाँति न खाना क्योंकि लोहू जो है सो प्राण  
 ही है और तू मांस के साथ प्राण न खाना । उस को न २४  
 खाना उसे जल की नाईं भूमि पर उँडेल देना । तू उसे  
 न खाना इस लिये कि वह काम करने से जो यहोवा के  
 लेखे ठीक है तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला २५  
 हो । पर जब तू कोई वस्तु पवित्र करे वा मन्नत माने तो  
 ऐसी वस्तुएँ लेकर उस स्थान को जाना जिस को यहोवा  
 चुन लेगा । और वहाँ अपने होमबलियों के मांस और लोहू २७  
 दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना और  
 मेलबलियों का लोहू उस की वेदी पर उँडेल कर उन  
 का मांस खाना । इन बातों को जिन की आज्ञा मैं तुम्हें २८  
 सुनाता हूँ चिन्त लगा कर सुन कि जब तू वह काम करे जो  
 तेरे परमेश्वर यहोवा के लेखे भला और ठीक है तब तेरा  
 और तेरे पीछे तेरे वंश का भी सदा लो भला होता रहे ॥

जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिन का २६

- अधिकारी है। तो जानने पर है तेरे आगे से नाश करे और तू उन का अधिकारी होकर उन के देश में बस जाए, तब सचेत रहना न हो कि उन के सत्यानाश होने के पीछे तू भी उन की नाई फंस जाए अर्थात् यह कह कर उन के देवताओं को न पूजना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति करते थे मैं भी वैसी ही करूँगा । तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा बरताव न करना क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा धिन और बैर रखता है उन सभी को उन्होंने अपने देवताओं के लिये किया है, बरन अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिये होम करके जलाते हैं ॥
- जितनी बातों की मैं तुम को आशा देता हूँ उन को चौकस होकर माना करना न तो उन में कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना ॥

### १३. यदि तेरे बीच कोई नबी वा स्वप्न देखनेहारा प्रगट होकर तुम्हें कोई

- २ चिन्ह वा चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह वा चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुम्हें से कहे कि आओ हम पराये देवताओं के पीछे होकर जाँ अथ लौ तुम्हारे अनजाने रहे
- ३ उन की उपासना करें तो पूरा हो जाए, तो भी तू उस नबी वा स्वप्न देखनेहारे के वचन पर कान न धरना क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा इस लिये कि जान ले कि ये मुझ से अपने सारे मन और सारे जीव के साथ प्रेम रखते हैं वा नहीं । तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उस का भय मानना और उस की आज्ञाओं पर चलना और उस का वचन मानना और उस की सेवा करना और उस के बने रहना । और ऐसा नबी वा स्वप्न देखनेहारा जो तुम को तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेरके जिस ने तुम को मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहनेहारा ठहरेगा इस कारण यह मार डाला जाए । इस रीति तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना ॥
- यदि तेरा सगा भाई वा बेटा वा बेटी वा तेरी अर्द्धांगिन<sup>१</sup> वा प्राणप्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुम्हें को यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना करें जिन्हें न तू न तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहनेहारे आसपास के लोगों के चाहे पृथिवी की एक छोर से लेके दूसरे छोर लौ दूर दूर रहनेहारे के

देवता हों, तो उस की न मानना बरन उस की न सुनना और न उस पर तरस खाना न कोमलता दिखाना न उस को छिपा रखना । उस को अवश्य घात करना उस के घात करने में पहिले तेरा हाथ उठे पीछे सब लोगों के हाथ उठें । उस पर ऐसा पत्थरबाह करना कि वह मर जाए क्योंकि उस ने तुम्हें को तेरे उस परमेश्वर यहोवा की ओर से जो तुम्हें को दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निकाल लाया है बहकाने का यत्न किया है । और सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेंगे ॥

यदि तेरे किसी नगर के विषय जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें रहने के लिये देता है ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि, कितने अधम पुरुषों ने तुम्हारे बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ हम दूसरे देवताओं की जो अब लौ तुम्हारे अनजाने रहे उपासना करें, तो पूछपाछ करना और खोजना और भली भाँति पता लगाना और जो यह बात सच हो और कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा धिनौना काम किया जाता है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि उस सब समेत जो उस में हो उस को तलवार से सत्यानाश करना । और उस में की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी कर उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिये मानों सर्वांग होम करके जलाना और वह सदा लौ डीह रहे वह फिर बसाया न जाए । और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए कि यहोवा अपने मड़के हुए कोप से शान्त होकर जैसा उस ने तेरे पितरों से किरिया खाई थी वैसा ही तुम्हें से दया का व्यवहार करे और दया करके तुम्हें को गिनती में बढ़ाए । यह तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की मानते हुए जितनी आज्ञाएँ मैं आज तुम्हें दुनाता हूँ उन सभी को मानेगा और जो तेरे परमेश्वर यहोवा के लेखे में ठीक है सोई करेगा ॥

१४. तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो सो मुए हुआ के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न मौँहों के बाल मुँड़ाना<sup>२</sup> । क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिये एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुम्हें को पृथिवी भर के सब देशों के लोगों में से अपना निज धन देने के लिये चुन लिया है ॥

(१) मूल में तुम्हारी गोद की स्त्री ।

(२) मूल में अपनी आँखों के बीच गजापम न करना ।

- ३, ४ तू कोई चिन्नीनी वस्तु न खाना । जो पशु तुम खा सकते हो सो ये हैं अर्थात् गाय बैल भेड़ बकरी, ५ हरिण चिकारा यखमूर बनेली बकरी साबर नीलगाय ६ और बनेली भेड़ । निदान पशुओं में से जितने पशु चिरे वा फटे खुरवाले और पागुर करनेवाले होते हैं उन का ७ मांस तुम खा सकते हो । पर पागुर करनेहारों वा चिरे खुरवालों में से इन पशुओं का अर्थात् ऊंट खरहा और शापान को न खाना क्योंकि ये पागुर तो करते पर चिरे ८ खुर के नहीं होते इस से वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं । फिर दूसर जो चिरे खुर का तो होता है पर पागुर नहीं करता इस से वह तुम्हारे लिये अशुद्ध है सो न तो इन का मांस खाना और न इन की लोथ छूना ॥
- ९ फिर जितने जलजन्तु हैं उन में से तुम इन्हें खा सकते हो अर्थात् जितनों के पंख और छिलके होते हैं । १० पर जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना क्योंकि वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं ॥
- ११ सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो । १२ पर इन का मांस न खाना अर्थात् उकाब हड़फोड़ कुरर, १३, १४ गरुड़ चील और भांति भांति के शाही, और भांति १५ भांति के सब काग, शतभुर्ग तहमास जलकुक्कुट और १६ भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का १७, १८ उल्लू और दुग्धू, धनेश गिद्ध हाड़गील, सारस भांति १९ भांति के बगुले नौवा और चमगीदड़, और जितने रंगनेहारे पंखवाले हैं सो सब तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं वे २० खाए न जाएं । पर सब शुद्ध पंखवालों का मांस तुम खा सकते हो ॥
- २१ जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी का खाने के लिये दे सकते हो वा किसी बिराने के हाथ बेच सकते हो पर तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र समाज है । बकरी का बच्चा उस की माता के दूध में न सिभाना ॥
- २२ बीज का सारी उपज में से जो बरस बरस खेत में २३ उपजे दशमांश अवश्य अलग करके रखना । और जिस स्थान का तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिये चुन ले उस में अपने अन्न नये दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहिलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने खाया करना जिस से तुम उस का भय नित्य २४ मानना सीखोगे । पर यदि वह स्थान जिस का तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाये रखने के लिये चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिये इतनी लम्बी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की

आशिष से मिली हुई वस्तुएं वहां न ले जा सके, तो २५ उसे बेचके रुपये का बांध हाथ में लिये हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा । और २६ वहां गायबैल वा भेड़बकरी वा दाखमधु वा मदिग वा किसी भांति की वस्तु क्यों न हो जो तेरा जी चाहे सो उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने खाकर आनन्द करना । और अपने फाटकों के भीतर के लेवीय को न छोड़ना २७ क्योंकि तेरे साथ उस का कोई भाग वा अंश न होगा ॥

तीन तीन बरस के बीते पर तीसरे बरस की उपज २८ का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना । तब लेवीय जिस का तेरे संग कोई २९ निज भाग वा अंश न होगा वह और जो परदेशी और बपमूए और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों वे भी आकर पेट भर खाएं जिस से तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुम्हें आशिष दे ॥

## १५. सात सात बरस के बीते पर उगाही

छोड़ देना, अर्थात् जिस किसी २  
श्रृणु देनेहारे ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो सो उस की उगाही छोड़ दे और अपने पड़ोसी वा भाई से उस का बरबस न भरवा ले क्योंकि यहोवा के नाम से उगाही छोड़ देने का प्रचार हुआ है । बिराने मनुष्य ३ से तू उसे बरबस भरवा सकता है पर जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हां उस को तू बिना भरवाये छोड़ देना । तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा क्योंकि जिस देश का तेरा ४ परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुम्हें देता है कि तू उस का अधिकारी हो उस में वह तुम्हें बहुत ही आशिष देगा । इतना हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ५ चित्त लगाकर सुने और इस सारी आज्ञा के जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानने में चौकसी करे । तब तेरा परमेश्वर ६ यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशिष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा पर तुम्हें उधार लेना न पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा पर वे तेरे ऊपर प्रभुता करने न पाएंगी ॥

जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है ७ उस के किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिये न तो अपना हृदय कठोर करना न अपनी मुट्ठी कड़ी करना । जिस वस्तु की घटी उस का हो उस का जितना ८ प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उस को उधार देना । सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम ९

(१) मूल में उस ।

- चिन्ता न समाए कि सातवां बरस जिस में उगाही छोड़ देना होगा सो निकट है और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की आंर से क्रूर करके उसे कुछ देने से नाह करे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दोहाई दे और यह तेरे लिये पाप ठहरे । तू उस को अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिन में तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशिष देगा । तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाये जाएंगे इसलिये मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में के अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढोला करके अवश्य दान देना ॥
- १२ यदि तेरा कोई भाईबन्धु अर्थात् कोई इब्री वा इजिन तेरे हाथ बिके और वह छः बरस तेरी सेवा कर चुके तो सातवें बरस उस को अपने पास से स्वाधीन करके जाने देना । और जब तू उस को स्वाधीन करके अपने पास से जाने दे तब उसे छोड़े हाथ जाने न देना । बरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमधु के कुण्ड में से उस को बहुतायत से देना तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशिष दी हो उस के अनुसार उसे देना । और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ । और यदि वह तुझ से और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनन्द से रहता हो और इस कारण तुझ से कहने लगे कि मैं तेरे पास से न जाऊँगा, तो सुतारी लेकर उस का कान किवाड़ पर लगाकर छेदना तब वह सदा लों तेरा दास बना रहेगा । और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना । जब तू उस को अपने पास से स्वाधीन करके जाने दे तब उसे छोड़ देना तुझ को कठिन न जान पड़े क्योंकि उस ने छः बरस दो मजूरों के बराबर तेरी सेवा की है और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझ को आशिष देगा ॥
- १९ तेरी गायों और भेड़बकरियों के जितने पहिलौटे नर हों उन सभी को अपने परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र रखना अपनी गायों के पहिलौटे से कोई काम न लेना और न अपनी भेड़बकरियों के पहिलौटे को ऊन कतरना ।
- २० उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेंगा तू यहोवा के साम्हने अपने अपने घराने समेत बरस बरस उस का मांस खाना । पर यदि उस में किसी प्रकार का दोष हो जैसे वह लंगड़ा वा अंधा हो वा उस में किसी ही प्रकार की बुराई का दोष हो तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिये बलि न करना । उस को अपने फाटकों

के भीतर खाना शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हरिण का मांस खाते हैं वैसे ही उस का भी खा सकेंगे । पर उस का लोहू न खाना उसे जल की नाईं भूमि पर उंडेल देना ॥

## १६. आशीष महीने को स्मरण करके अपने

परमेश्वर यहोवा के लिये फसह नाम पर्व मानना क्योंकि आशीष महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया । सो जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेंगा वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिये भेड़बकरियाँ और गाय बैल फसह करके बलि करना । उस के संग कोई खमीरी वस्तु न खाना सात दिन लों अखमीरी रोटी जो दुःख की रोटी है खाया करना क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था इस रीति तुझ को मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा । सात दिन लों तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी न आए और जो पशु तू पहिले दिन की सांभ को बलि करे उस के मांस में से कुछ बिहान लों रहने न पाए । फसह को अपने किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि न करना । जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिये चुन ले केवल वहीं बरस के उसी समय जिस में तू मिस्र से निकला था अर्थात् सूरज डूबने पर संध्याकाल को फसह का पशुबलि करना । तब उस का मांस उसी स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूँजकर खाना फिर बिहान को उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना । छः दिन लों अखमीरी रोटी खाया करना और सातवें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये महासभा हो उस दिन किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए ॥

फिर जब तू खेत में ईसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके सात अठवारे गिनना । तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशिष के अनुसार उस के लिये स्वेच्छादलि देकर अठवारों नाम पर्व मानना । और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हों और जो जो परदेशी और बपमूए और विषवाएँ तेरे बीच में हों सो सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने आनन्द करें । और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था इस लिये इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना ॥

जब तू अपने खलिहान और दाखमधु के कुण्ड में

- १४ से सब कुछ इकट्ठा कर चुके तब भोपाड़ियों नाम पर्व सात दिन मानते रहना । और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और जो लेवीय और परदेशी और बपमूए और विधवाएँ तेरे फाटकों के भीतर हों तो भी आनन्द करें । जो स्थान यहोवा चुन ले उस में तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिये सात दिन लों पर्व मानते रहना इस कारण कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बड़ती में और तेरे सब कामों में तुझ को आशिष देगा तू आनन्द ही करना । बरस दिन में तीन बार अर्थात् अखमीरी रोटी के पर्व और अठवारों के पर्व और भोपाड़ियों के पर्व इन तीनों पर्वों में तुझ में से सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएँ और देखो छूछे हाथ यहोवा के साम्हने कोई न जाए । सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशिष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें ॥
- १८ अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को देता है न्यायी और सरदार ठहरा लेना जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें । न्याय न बिगाड़ना पक्षपात न करना और घूस न लेना क्योंकि घूस बुद्धिमान् की आँखें अंधी कर देती और धर्मियों की बातें उलट देती है । धर्म ही धर्म का पीछा पकड़े रहना इसलिये कि तू जीता रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उस का अधिकारी बना रहे ॥
- २१ तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उस के पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशरा न थापना । और न कोई लाठ खड़ी करना क्योंकि उस से तेरा परमेश्वर यहोवा घिन करता है ॥

### १७ अपने परमेश्वर यहोवा के लिये कोई

ऐसी गाय वा बैल वा भेड़बकरी बलि न करना जिस में दोष वा किसी प्रकार की खेटाई हो क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा को घिनौना लगता है ॥

- १ जो फाटक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है यदि उन में से किसी में कोई पुरुष वा स्त्री ऐसी पाई जाय कि जिस ने तेरे परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उस के लोखे में बुरा है, अर्थात् मेरी आज्ञा उल्लंघन करके अराये देवताओं की वा सूर्य वा चंद्रमा वा आकाश के गण में से किसी की उपासना वा उन को दण्डवत् किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए तब भली भाँति पूछपाछ करना और यदि यह बात सच ठहरे कि निश्चय ह्साएल

में ऐसा घिनौना काम किया गया है, तो जिस पुरुष वा स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो उस पुरुष वा स्त्री को बाहर अपने फाटकों के पास ले जाकर ऐसा पत्थर-वाह करना कि वह मर जाए । जो प्राणदण्ड के योग्य ठहरे तो एक ही साक्षी के कहे से न मार डाला जाए दो वा तीन साक्षियों के कहे से मार डाला जाए । उस के मार डालने के लिये सब से पहिले साक्षियों के हाथ और उन के पीछे सब लोगों के हाथ उस पर उठें ॥ इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने बीच से दूर करना ॥

यदि तेरे फाटकों के भीतर कोई भगड़े की बात हो अर्थात् आपस के खून वा विवाद वा मारपीट का कोई मुकद्दमा उठे और उस का न्याय करना तेरे लिये कठिन जान पड़े तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायी के पास जाकर पूछना कि वे तुम को न्याय की बात बतलाएँ । और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुम्हें बता दें उस के अनुसार करना और जो व्यवस्था वे तुम्हें दें उस के अनुसार चलने में चौकसी करना । व्यवस्था की जो बात वे तुम्हें बतलाएँ और न्याय की जो बात वे तुम्हें से कहें उसी के अनुसार करना जो बात वे तुम्हें को बताएँ उस से न तो दहिने मुड़ना न बाएँ । और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को हाजिर रहेगा न माने वा उस न्यायी की न सुने वह मनुष्य मार डाला जाए । सो तुम ह्साएल में से बुराई को दूर करना । इस से सब लोग सुनकर भय लाएंगे और फिर अभिमान न करेंगे ॥

जब तू उस देश में पहुँचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है और उस का अधिकारी हो और उस में बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नाई में भी अपने ऊपर राजा ठहराऊँगा, तब जिस को तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना, अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना किसी बिराने को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर ठहरा नहीं सकता । और वह बहुत थोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि बहुत थोड़े लें क्योंकि यहोवा ने तुम से कहा है कि तुम उस मार्ग से कभी न लौटना । और वह बहुत स्त्रियाँ न करे न हो कि उस का मन यहोवा से फिर जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए । और जब वह राजगद्दी पर विराजे तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उस की वह

१९ अपने लिये एक नकल कर ले । और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उस को पढ़ा करे इस लिये कि वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इस विधियों की सारी बातों के मानने से  
२० चौकसी करना सीखे, जिस से वह घमण्ड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और आज्ञा से न तो दहिने मुड़े न बाएँ इस लिये कि वह और उस के वंश के लोग इस्राएलियों के बीच बहुत दिव लों राज्य करते रहें ॥

### १८. लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों का इस्राएलियों के

संग कोई भाग वा अंश न हो उन का भोजन इव्य और  
१ यहोवा का दिया हुआ भाग हो । उन का अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो क्योंकि अपने कहे के अनुसार  
२ यहोवा उन का निज भाग ठहरा । और चाहे गायबेल चाहे मैइवकरी का मेलबलि हो उस के करनेहारों लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उस का कांथा  
४ दोनों गाल और भोभ याजक को दें । तू उस को अपनी पहिली उपज का अन्न नया दालमधु और टटका तेल  
५ और अपनी भेड़ों की पहिली कतरी हुई ऊन देना । क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उस के वंश सदा लों उस के नाम से सेवा टहल करने का हाजिर हुआ करें ॥  
६ फिर यदि कोई लेवीय इस्राएल के फाटकों में से किसी से जहां वह परदेशी की नाई रहता हो अपने मन की बड़ी अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिससे यहोवा  
७ चुन लेगा, तो अपने सब लेवीय भाइयों की नाई जो वहां अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने हाजिर होगी वह  
८ भी उस के नाम से सेवा टहल करे । और अपने पितरों के भाग के माल को छोड़ उस के भोजन का भाग भी उन के समान मिला करे ॥  
९ जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हे देता है तब वहां की जातियों के अनुसार धिनौने  
१० काम करने का न सीखना । तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे वा बेटों के आग में होम करके चढानेहारा वा भाबी कहनेहारा वा शुभ अशुभ मुहूर्त्तों का गतने  
११ हारा वा टोन्हा वा तान्त्रिक, वा वाजीगर वा औभों से पूछनेहारा वा भूत साधनेवाला वा भूतों का जगानेहारा  
१२ हो । क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते सै सब यहोवा का धिनौने लगते हैं और ऐसे धिनौने कासों के कास्य तेरा परमेश्वर यहोवा उन को तेरे साम्हने से निकालने  
१३ पर है । तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर खड़ा रहना ।

वे जातियां जिन का अधिकारी तू होने पर है शुभ अशुभ  
मुहूर्त्तों के माननेहारों और भाबी कहनेहारों की सुना करती है पर तुझ को तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया । तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच से अर्थात्  
तेरे भाइयों में से मेरे समान एक तबी को उठाएगा उसी को तूम सुनना । यह तेरी उस बिनती के अनुसार होगा  
जो तू ने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिव अपने परमेश्वर यहोवा से की थी कि मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आज्ञा फिर देखनी पड़े नहीं तो सर जाऊंगा । तब यहोवा ने  
मुझ से कहा था इन्हों ने जो कहा सो अच्छा कहा । सो  
सैं उन के लिये उस के भाइयों के बीच में से तेरे समान एक तबी को उठाऊंगा और अपने वचन उसे सिखाऊंगा सो जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उसे उन को कह सुनाएगा । और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे  
नाम से कहेगा न माने उस से मैं इस का लेखा लूंगा । पर जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा  
वचन कहे जिस की आज्ञा मैं ने उसे न दी हो वा परस्ये देवताओं के नाम से कुछ कहे वह नबी मार डाला जाए । और यदि तू यह सन्देह करे कि जो वचन यहोवा ने नहीं  
कहा उस को दस किस रीति से पहिचान सकें, तो जान रख कि जब कोई तबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए तो वह ऐसा वचन ठहरेगा जो यहोवा ने नहीं कहा उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है तू उस से भय न खाना ॥

### १९. जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों

को नाश करे जिन का देश वह तुम्हे देता है और तू उन के देश का अधिकारी होके उन के नगरों और घरों में रहने लगे, तब अपने देश के बीच जिस का अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हे कर देता है तीन नगर अलग कर देना । उन के मार्ग सुधारै रखना और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हे भाग करके देता है तीन अंश करना इस लिये कि हर एक खूनी वही भाग जाए । और जो खूनी वहां भाग कर अपने प्राण बचाए सो इस प्रकार का हो कि वह किसी से बिना पहिले शेर रखे उस को बिना जाने बूके मार डाले । जैसा कोई किसी के संग लकड़ी काटने का जंगल में जाए और वृक्ष काटने का कुल्हाड़ी हाथ से उठाये पर कुल्हाड़ी बेंट से निकल कर उस भाई का ऐसा लगे कि वह मर जाए तो वह उन नगरों में से किसी में भाग कर जाता बचे । ऐसा न

हो कि अर्ग की क्षम्याई के कारण स्वर्ग की पत्नीय लेनेहारा मन जलने के समय उस का पीछा करके उस को ज ले और और डाले बचपि वह प्राणिरण्ड के योग्य ७ नहीं क्योंकि उस से बैर न रहता था । सो मैं तुम्हें यह आशं देता हूँ कि अपने लिये तीस नगर अलग कर ८ रखना । और यदि तेरी परमेश्वर बहोवा उस किरिषा के अनुसर जो उस ने तेरे पितरों से खाई थी तेरे सिवर्गों को बढ़ाकर वह बारा देश तुम्हें दे जिस के देने का बचन उस ने तेरे पितरों को दिया था यदि तू इन सब आशुओं के मानने में जिन्हें मैं आज तुम्हें को सुवाता हूँ चौकसी करे और अपने परमेश्वर बहोवा से ब्रह्म रखे और सदा ९ इस के मार्गों पर चलती रहे, तो इस तीन नगरों से अधिक १० और भी तीस नगर अलग कर देना, इसलिये कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर बहोवा तेरा निज भाग करके देता है किसी निर्दोष का खून न हो और उस का ११ शेष तुम्हें पर न लगे । पर यदि कोई किसी से बैर रख कर उस की बात में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उन नगरों में से किसी १२ में भाग जाए, तो उस के नगर के पुरनिये किसी को भेज कर उस को वहाँ से मंगकर खून के पलटा लेनेहारे के १३ हाथ में दे दे कि वह मार डाला जाए । उस पर तरस न खाना निर्दोष के खून का दोष इस्राएल से दूर करना जिस से तुम्हारा मला हो ॥

१४ जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें को देता है उस का जो भाग तुम्हें मिलेगा उस में किसी का सिवर्ग जिसे अगले लोगों ने ठहराया हो न हटाना ॥

१५ किसी भनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म वा पाप के विषय में यदि उस का बाप कैसा ही क्यों न हो एक ही मम की साक्षी न सुमना दी वा तीन साक्षियों के कहने से श्रास पकड़ी ठहरे । यदि कोई अधर करनेहारा साक्षी किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जीने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों भनुष्य जिन्हें के बीच पेशा मुकद्दमा उठा ही जहोवा के सम्मुख अर्थात् उस दिनों के राजकों और न्यायियों के साम्हने खड़े किये जाए । तब न्यायी भली जाति पूछपाछ करे और यदि यह ठहरे कि वह भूषण साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो जैसी हालि उस ने अपने भाई की करानी की बुके की ही वैसी ही तुम उस की करनी इसी रीति अपने २० बीच में से इसी बुसई का दूर करना । और दूसरे लोक सुन कर डरेंगे और आगे की लेरे बीच ऐसा बुरा काम २१ न करेंगे । और तू तरस न खाना प्राण की सन्ती प्राण का आख की सन्ती आख का दांत की सन्ती दात का

हाथ की सन्ती हाथ का पांव की सन्ती पांव का दण्ड देना ॥

२०. जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने

को जाँह और घेड़े रख और अपने से अधिक सेना की वैलि तब उम से न डरना तेरा परमेश्वर यहीवा जो तुम्हें को मिस देश से निकाल ले आया है वह तेरे साथ रहेगा । और जब तुम युद्ध करने २ को शत्रुओं के निकट जाओ तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियो सुनो आज तुम अपने शत्रुओं ३ से युद्ध करने की निकट आये ही तुम्हारा मन कशा न हो तुम मत डरो और न ममरो और न उन के साम्हने श्रास खाओ । क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं ४ से युद्ध करमें और तुम्हें बचाने को तुम्हारे संग संग चलता है । फिर सरदार सिपाहियों से कहें कि तुम में से ५ जिस किसी ने मया घर बनाया तो ही पर उस में प्रवेश न किया ही वह अपने घर को लौट जाए न ही कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा उस में प्रवेश करे । और जिस किसी ने दाख की बारी लगाई हो पर उस के फल न खाए हों वह अपने घर को लौट जाए न ही कि वह संग्राम में जूझ जाए और दूसरा उस के फल खाए । फिर ६ जिस किसी ने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाई हो पर उस को ब्याह न लाया हो वह अपने घर को लौट जाए न ही कि वह युद्ध में जूझ जाए और दूसरा उस को ब्याह ले । इस से अधिक सरदार सिपाहियों से यह भी ८ कहें कि जो डरपोक और कच्चे मन का हो वह अपने घर को लौट जाए न ही कि उस को देखादेखी उस के भाइयों का भी हियाव टूट जाए । और जब प्रधान ९ सिपाहियों से यह कह चुके तब उम पर प्रधानता करने के लिये सेनापतियों को ठहराए ॥

जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उस के निकट १० जाए तब उस से सन्धि करने का प्रचार करना । और यदि ११ वह सन्धि करना अर्गीकार करे और तेरे लिये उस के फाटक खुले तब जितने उस में हों सो सब तेरे अधीन होकर तेरे बेगार करनेहारे ठहरें । पर यदि वे तुम्हें से १२ सन्धि न करें पर तुम से लड़ने चाहें तो उस नगर को घेर लेना । और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ १३ में कर दे तब उस में के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना । पर स्त्रियाँ बालबच्चे पशु आदि जितनी सट उस १४ नगर में हो उसे अपने लिये रख लेना और तेरे शत्रुओं की जो लूट तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें दे उसे काम में १५ लाना । इस प्रकार उन नगरों से करना जो तुम्हें से बहुत दूर हैं और इन जातियों के नगर नहीं हैं । पर जो नगर १६



इन लोगों के हैं जिन का तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें को अधिकारी करने पर उन में से किसी प्राणी को जीता १७ न छोड़ना, पर उन को अवश्य सत्यानाश करना अर्थात् हितियों एमोरियों कनानियों परिजियों हिबियों और यबूसियों को जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें आशा १८ दी है, ऐसा न हो कि जितने विनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आये हैं उन कामों के अनुसार करना वे तुम को भी सिखाएँ और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करो ॥

१९ जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर के ले लेने को उसे बहुत दिन लों धरे रहे तब उस के वृद्धों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नाश न करना क्योंकि उन के फल तेरे खाने के काम आएंगे सो उन्हें न काटना क्या मैदान के २० वृद्ध भी मनुष्य हैं कि तू उन को भी धर रखे। पर जिन वृद्धों के विषय तू जाने कि इन के फल खाने के नहीं हैं उन को चाहे तो काटकर नाश करना और उस नगर के विरुद्ध तब लों धुस बांधे रहना जब लों वह तेरे बस में न आ जाए ॥

**२१. यदि उस देश के मैदान में जो तेरा**

परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है किसी मारे हुए की लोथ पड़ी हुई मिले और उस को २ किस ने मार डाला है यह जान न पड़े, तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकलकर उस लोथ से चारों ओर के एक ३ एक नगर तक मापें। तब जो नगर उस लोथ के सब से निकट ठहरे उस के पुरनिये एक ऐसी कलौर ले रखें जिस से कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ ४ कभो रक्खा न गया हो। तब उस नगर के पुरनिये उस कलौर को एक बारहमासी नदी की ऐसी तराई में जो न जोती न बौई गई हो ले जाएँ और उसी तराई में उस ५ कलौर का गला तोड़ दें। और लेवीय याजक भी निकट आएँ क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उन को चुन लिया है कि उस की सेवा टहल करें और उस के नाम से आशीर्वाद दिया करें और उन के कहे से हर एक भगड़े ६ और मारपीट के मुकद्दमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस लोथ के सब से निकट ठहरे उस के सब पुरनिये उस कलौर के ऊपर जिस का गला तराई में तोड़ा गया हो ७ अपने अपने हाथ धोकर, कहें यह खून हम से नहीं किया गया और न यह हमारी आँखों का देखा हुआ काम ८ है। सो हे यहोवा अपनी छुड़ाई हुई इस्राएली प्रजा का पाप दाँपकर निर्दोष के खून का पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून का दौष ९ उन के लिये दाँपा जाएगा। यों वह काम करके जो

यहोवा के लेले में ठीक है तू निर्दोष के खून का दौष अपने बीच में से दूर करना ॥

जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और तेरा १० परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंधुआ कर ले, तब यदि तू बंधुओं में किसी सुन्दर स्त्री को ११ देखकर उस पर मोहित हो जाए और उस को ब्याह लेने चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वह १२ अपना सिर मुँडाय नखून कटाय, अपने बन्धुआई के बख १३ उतारके तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिये विलाप करती रहे उस के पीछे तू उस के पास जाना और तू उस का पति और वह तेरी पत्नी हो। फिर १४ यदि वह तुम्हें को अच्छी न लगे तो जहाँ वह जाना चाहे तहाँ उसे जाने देना उस को रुपया लेकर कहीं न बेचना और तू ने जो उस की पत ली इस कारण उस से जबर्दस्ती न करना ॥

यदि किसी पुरुष के दो स्त्रियाँ हों और उसे एक प्रिय १५ दूसरी अप्रिय हो और प्रिया और अप्रिया दोनों स्त्रियाँ बेटे जनों पर जैठ अप्रिया का हो, तो जब वह अपने पुत्रों को १६ अपनी संपत्ति के भागी करे तब यदि अप्रिया का बेटा जो सचमुच जैठ है सो जीता हो तो वह प्रिया के बेटे को जैठास न दे सकेगा। वह यह जानकर कि अप्रिया १७ का बेटा मेरे पौरुष का पहिला फल है और जेठे का हक उसी का है उसी को अपनी सारी संपत्ति में से दो भाग देकर जैठासी माने ॥

यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो जो १८ अपने माता पिता की न माने बरन ताड़ना देने पर भी उन की न सुने, तो उस के माता पिता उसे पकड़कर अपने १९ नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएँ। और वे नगर के पुरनियों से कहें हमारा यह २० बेटा हठीला और दंगैत है यह हमारी नहीं सुनता यह उड़ाक और पियकड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उस को २१ पर्यरवाह करके मार डालें यों तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना और सारे इस्राएली सुनकर भय खाएँगे ॥

फिर यदि किसी से प्राणदण्ड के योग्य कोई पाप हो २२ और वह मार डाला जाए और तू उस की लोथ वृद्ध पर लटक दे, तो वह रात को वृद्ध पर टंगी न रहे अवश्य उसी दिन २३ उसे मिट्टी देना क्योंकि जो लटकाया गया हो सो परमेश्वर से स्थापित ठहरता है जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उस की भूमि अशुद्ध न करना ॥

**२२. तू** अपने भाई के गायबैल वा भेड़बकरी के मटकी हुई देखकर अनदेखी न करना उस को अवश्य उस के पास पहुँचा देना ।

- १ पर यदि तेरा बह भाई निकट न रहता ही वा तू उसे न जानता हो तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना और जब लो तेरा बह भाई उस को न ठुंके तब लो बह तेरे पास रहे और जब बह उसे ठुंके तब उस को दे देना । और उस के गदहे वा वस्त्र के विषय बरन उस की कोई वस्तु क्यों न हो जो उस से ली गई हो और तुम को मिले उस के विषय भी ऐसा ही करना तू देखी अनदेखी न करना ॥
- ४ तू अपने भाई के गदहे वा बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न करना उस के उठाने में अवश्य उस की सहायता करना ॥
- ५ कोई स्त्री पुरुष का पहिरावा न पहिने और न कोई पुरुष स्त्री का पहिरावा पहिने क्योंकि ऐसे कामों के सब करनेहारे तेरे परमेश्वर यहोवा को धिनीने लगते हैं ॥
- ६ यदि बृक्ष वा भूमि पर तेरे साम्हने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले चाहे उस में बच्चे हों चाहे अण्डे और उन बच्चों वा अण्डों पर उन की मा बैठी हुई हो तो बच्चों समेत मा को न लेना । बच्चों को अपने लिये ले तो ले पर मा को अवश्य छोड़ देना इस लिये कि तेरा भला हो और तेरे दिन बहुत हों ॥
- ८ जब तू नया घर बनाए तब उस की छत पर आड़ के लिये मुण्डेर बनाना ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए ।
- ९ अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न बोना, न हो कि उस की सारी उपज अर्थात् तेरा बोया हुआ बीज
- १० और दाख की बारी की उपज दोनों पवित्र ठहरे । बैल
- ११ और गदहा दोनों संग जोतकर हल न चलाना । उन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहिनना ॥
- १२ अपने ओढ़ने के चारों ओर की कौर पर झालर लगाया करना ॥
- १३ यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याहे और उस के
- १४ पास जाने के समय वह उस को अप्रिय लगे, और वह उस स्त्री की नामधराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए कि इस स्त्री को मैं ने ब्याहा और जब उस से संगति की तब उस में कुंवारी रहने के लक्षण न पाए, तो उस कन्या के माता पिता उस के कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के पुरनियों के पास फाटक के बाहर
- १५ जाएं । और उस कन्या का पिता पुरनियों से कहे मैं ने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी और वह उस को
- १६ अप्रिय लगती, और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैं ने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाये पर मेरी बेटी के कुंवारीपन के

चिन्ह ये हैं तब उस के माता पिता नगर के पुरनियों के साम्हने उस चहर को फैलाएँ । तब नगर के पुरनिये उस पुरुष को पकड़ कर ताड़ना दें, और उस पर सौ शेकेल रूपे का दण्ड भी लगातार उस कन्या के पिता को दें इसलिये कि उस ने एक इस्राएली कन्या की नामधराई की है और वह उसी की स्त्री बनी रहे और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए । पर यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाये न जाएँ और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उस के पिता के घर के द्वार पर ले जाएँ और उस नगर के पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डालें उस ने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके मूढ़ता की है यों तू अपने बीच से ऐसी बुराई को दूर करना ॥

यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो सो और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएँ । यों तू ऐसी बुराई को इस्राएल में से दूर करना ॥

यदि किसी कुंवारी कन्या के ब्याह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उस से कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन को पत्थरवाह करके मार डालना उस कन्या को तो इस लिये कि वह नगर में रहते भी नहीं चिक्काई और उस पुरुष को इस कारण कि उस ने अपने पड़ोसी की स्त्री की पत ली है । यों तू अपने बीच से ऐसी बुराई को दूर करना ॥

पर यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जित के ब्याह की बात लगी है मैदान में पाकर बरबस उस से कुकर्म करे तो केवल वह पुरुष मार डाला जाए जिस ने उस से कुकर्म किया हो, और उस कन्या से कुकर्म न करना उस कन्या में प्राणदण्ड के योग पाप नहीं क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले वैसी ही यह बात भी ठहरेगी, कि उस पुरुष ने उस कन्या को मैदान में पाया और वह चिक्काई तो सही पर उस को कोई बचानेहारा न मिला ॥

यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिस के ब्याह की बात न लगी हो और वह उसे पकड़कर उस के साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाएँ, तो जिस पुरुष ने उस से कुकर्म किया हो सो उस कन्या के पिता को पचास शेकेल रूपा दे और वह उसी की स्त्री हो उस ने उस की पत ली इस कारण वह जीवन भर उसे न त्यागने पाए ॥

कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री न बनाए वह अपने पिता का ओढ़ना न उधारे ॥

२३. जिस के अण्ड कुचले गये वा लिंग काट डाला गया हो सो यहोवा की सभा में न आने पाए ॥

२ कोई विजन्मा यहोवा की सभा में न आने पाए बरन दस पीढ़ी लों उस के वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए ॥

३ कोई अम्मोनी वा मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए उन को दसवीं पीढ़ी लों का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए, इस कारण से कि जब तुम मिश्र से निकल कर आते थे तब उन्होंने नै अन्न जल लेकर भाग में तुम से भेंट न की और यह भी कि उन्होंने नै अरझहरैम देश के पतोर नगरवाले बोर के पुत्र विलाम को तुम्हें स्नाप देने के लिये दक्षिणा दी । पर तैरे परमेश्वर यहोवा ने तैरे विलाम की न सुनी बरन तैरे परमेश्वर यहोवा ने तैरे निमित्त उस के स्नाप को आशिष से पलट दिया इम लिये कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्ह से प्रेम रखता था ।

४ तू जीवन भर उन का कुशन और भलाई कभी न चाहना ॥

५ किसी एदीमी से धिन न करना क्योंकि वह तेरा भाई है किसी भिस्सी से भी धिन न करना क्योंकि उस के देश में तू परदेशी होकर रहा था । उन के जो परपोते उत्पन्न हों वे यहोवा की सभा में आने पाए ॥

६ जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले

१० तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचा रहना । यदि तैरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात को आप से स्नाप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर न आए । पर सांभ से कुछ पहिले वह स्नान करे और जब सूर्योदय हुआ तब छावनी में आए । छावनी के बाहर तैरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वही दिशा फिरने की जाया करना । और तैरे पास के हथियागों में एक खनो भी रहे और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उस से खौदकर

११ अपने मल को टांप देना । क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्ह को बचाने और तैरे शत्रुओं को तुम्ह से हरवाने का तैरी छावनी के बीच घूमता रहेगा इस लिये तैरी छावनी पवित्र रहनी चाहिये न हो कि वह तैरे बीच कोई लज्जा की वस्तु देखकर तुम्ह से फिर जाए ॥

१२ अपने मल को टांप देना । क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्ह को बचाने और तैरे शत्रुओं को तुम्ह से हरवाने का तैरी छावनी के बीच घूमता रहेगा इस लिये तैरी छावनी पवित्र रहनी चाहिये न हो कि वह तैरे बीच कोई लज्जा की वस्तु देखकर तुम्ह से फिर जाए ॥

१३ अपने मल को टांप देना । क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्ह को बचाने और तैरे शत्रुओं को तुम्ह से हरवाने का तैरी छावनी के बीच घूमता रहेगा इस लिये तैरी छावनी पवित्र रहनी चाहिये न हो कि वह तैरे बीच कोई लज्जा की वस्तु देखकर तुम्ह से फिर जाए ॥

१४ अपने मल को टांप देना । क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्ह को बचाने और तैरे शत्रुओं को तुम्ह से हरवाने का तैरी छावनी के बीच घूमता रहेगा इस लिये तैरी छावनी पवित्र रहनी चाहिये न हो कि वह तैरे बीच कोई लज्जा की वस्तु देखकर तुम्ह से फिर जाए ॥

१५ अपने मल को टांप देना । क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्ह को बचाने और तैरे शत्रुओं को तुम्ह से हरवाने का तैरी छावनी के बीच घूमता रहेगा इस लिये तैरी छावनी पवित्र रहनी चाहिये न हो कि वह तैरे बीच कोई लज्जा की वस्तु देखकर तुम्ह से फिर जाए ॥

१६ अपने मल को टांप देना । क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्ह को बचाने और तैरे शत्रुओं को तुम्ह से हरवाने का तैरी छावनी के बीच घूमता रहेगा इस लिये तैरी छावनी पवित्र रहनी चाहिये न हो कि वह तैरे बीच कोई लज्जा की वस्तु देखकर तुम्ह से फिर जाए ॥

१७ अपने मल को टांप देना । क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्ह को बचाने और तैरे शत्रुओं को तुम्ह से हरवाने का तैरी छावनी के बीच घूमता रहेगा इस लिये तैरी छावनी पवित्र रहनी चाहिये न हो कि वह तैरे बीच कोई लज्जा की वस्तु देखकर तुम्ह से फिर जाए ॥

१८ अपने मल को टांप देना । क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्ह को बचाने और तैरे शत्रुओं को तुम्ह से हरवाने का तैरी छावनी के बीच घूमता रहेगा इस लिये तैरी छावनी पवित्र रहनी चाहिये न हो कि वह तैरे बीच कोई लज्जा की वस्तु देखकर तुम्ह से फिर जाए ॥

हो । वेश्यापन की कमाई वा कुत्तों की कमाई कोई मजत न पूरी करने के लिये अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाए क्योंकि तैरे परमेश्वर यहोवा को ये दोनों की कमाई भिनीती लगती है ॥

अपने किसी भाई की ब्याज पर श्रृण न देना, चाहे रुपया हो चाहे भोजनवस्तु हो चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है उसे ब्याज न देना । विराने की ब्याज पर श्रृण दो तो दो पर अपने किसी भाई से ऐसा न करना जिस से जिस देश का अधिकारी होने की तु जाने पर है वहां जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए उन सभी में तैरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें आशिष दे ॥

जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिये मजत माने तो उस के पूरी करने में विलम्ब न करना क्योंकि तैरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुम्ह से ले लेगा और विलम्ब करने से तुम्ह को पाप लगेगा । पर यदि तू मजत न माने तो तुम्ह को पाप न लगेगा । जो कुछ तैरे मुंह से निकले उस के पूरा करने में चौकसी करना तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मजत माने वैसी ही उसे पूरा करना ॥

जब तू किसी दूसरे की दाग की बारी में जाए तब पेट भर मनमानते दाख लो तो खा पर अपने पात्र में कुछ न रखना । और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ में बालें तोड़ सकता है पर किसी दूसरे के खड़े खेत पर ईसुआ न लगाना ॥

२४. यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को न्याह ले और पीछे उस में कुछ लज्जा की बात पाकर उस से अप्रसन्न हो तो वह उस के लिये त्यागपत्र लिख उसके हाथ में देकर उस को अपने घर से निकाल दे । और जब वह उस के घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है । पर यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उस के लिये त्यागपत्र लिख उस के हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे वा वह दूसरा पुरुष जिस ने उस को अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उस का पहिला पति जिस ने उस को निकाल दिया हो उस के अशुद्ध होने के पीछे उसे अपनी स्त्री न करवे पाए क्योंकि यह यहोवा को भिनीता लगता है । जो तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुम्हें देता है पापी न बना ॥

जो पुरुष हाले का न्याहा हुआ हो वह सेना के

(१) मूल में देश से पाप न कराना ।

- जब न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए वह बरस दिन लौ अपने घर में आवकाश से रहकर ६ अपनी स्त्री ही की प्रसन्न करता रहे । कोई मनुष्य किसी को वा उस के ऊपर के पाद को बंधक न रखे क्योंकि वह तो प्राण ही बंधक रखना है ॥
- ७ यदि कोई अपने किसी इस्त्राएली भाई को दास बनाने का बेज डालने की मनसा से जुराता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसा और भार डाला जाए या ऐसी जुराई को अपने बीच में से दूर करना ॥
- ८ कोई की व्याधि के विषय चौकस रहना और जो कुछ लौकीय बाजक तुम्हें सिखाए उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना जैसी आज्ञा मैं ने उन को दी है वैसा करने में चौकसी करना । स्मरण रखना कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे सिद्ध से निकलने के पीछे मार्ग में सरियम से क्या किया ॥
- १० जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे, तब बंधक की वस्तु लेने को उस के घर के भीतर न घुसना ।
- ११ तू बाहर खड़ा रहना और जिस को तू उधार देता हो
- १२ वही बंधक को तेरे पास बाहर ले जाए । और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उस का बंधक अपने पास रखे १३ हुए न सोना । सूर्य्य हूँते हूँते उसे वह बंधक अवश्य कर देगा इस लिये कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सोए और तुम्हें आशीर्वाद दे और यह तेरे परमेश्वर यहोवा के लोके धर्म का काम ठहरेगा ॥
- १४ कोई मजूर जो दीन और कंगाल हो चाहे वह तेरे भाइयों में से चाहे तेरे देस के फाटकों के भीतर रहनेहारे १५ परदेशियों में से हो उस पर अविश्र न करना । यह जानकर कि वह दीन है और उस का मन मजूरी में लगा रहता है मजूरी करने ही के दिन सूर्य्य हूँते से पहिले तू उस की मजूरी देना न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दोहाई दे और तुम्हें पाप लगे ॥
- १६ पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न क्लिष्ट के कारण पुत्र मार डाला जाए जिस ने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए ॥
- १७ किसी परदेशी मनुष्य वा बपमूए बालक का न्याय न कियाजना और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना । और इस को स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें वहां से छुड़ा लाया इस कारण मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ ॥
- १८ जब तू अपने परके खेत के काटे और एक पूला खेत में मूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न जाना वह परदेशी बपमूए और विधवा के लिये पड़ा रहे इस

लिये कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कार्यों में तुम्हें को आशिष दे । जब तू अपने जलपाई के वृद्ध को भाड़े तब २० बाजियों को दूसरी बार न भाड़ना वह परदेशी बपमूए और विधवा के लिये रह जाए । जब तू अपनी दास की २१ बारी के फल सोड़े तो पीछे छूटे हुओं को न लेना वह परदेशी बपमूए और विधवा के लिये रह जाए । और २२ इस को स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था इस कारण मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ ॥

## २५. यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो

और वे व्याय चुकवाने को न्याइयों के पास जाएं और वे उन का न्याय करें तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए । और यदि दोषी २ मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उस को मारवा अपने साम्हने जैसा उस का दोष हो उस के अनुसार कोड़े मिन मिनकर लगवाए । वह उसे चालीस कोड़े तक ३ लगवा सकता है, इस से अधिक नहीं लगवा सकता ऐसा न हो कि इस से अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरे लोखे तुच्छ ठहरे ॥

दांवते समय बैल का मुँह न बांधना ॥ ४

जब कई भाई संग रहते हों और उन में से एक ५ मिपुत्र मर जाए तो उस की स्त्री का व्याह पगोत्री से न किया जाए उस के पति का भाई उस के पास जाकर उसे अपनी स्त्री कर ले और उस से पति के भाई का धर्म पालन करे । और जो पहिला बेटा वह स्त्री जने ६ वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे इस लिये कि उस का नाम इस्त्राएल में से मिट न जाए । यदि उस ७ स्त्री के पति के भाई को उसे न्याहना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर पुरनियों के पास जाकर कहे कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्त्राएल में स्थाये रखने से नाह किया है और मुझ से पति के भाई का धर्म पालना नहीं चाहता । तब उस नगर के ८ पुरनिये उस पुरुष को बुलवाकर उस को समझाए और यदि वह अपनी शक्त पर अड़ा रहकर कहे मुझे इस का न्याहना नहीं भावता, तो उस के भाई की स्त्री पुरनियों ९ के साम्हने उस के पास जाकर उस के पांव से जूती उतारे और उस के मुँह पर थूक दे और कहे जो पुरुष अपने भाई के बंध को चलाने न चाहे उस से ये ही किया जाएगा । तब इस्त्राएल में उस पुरुष का यह नाम १० पड़ेगा अर्थात् जूती उतारे हुए पुरुष का धराना ॥

यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हों और उन ११ में से एक की स्त्री अपने पति को मारनेहारे के हाथ से छुड़ाने के लिये पास जा अपना हाथ बढ़ाकर उस के

- १२ गुह्य अंग को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना उस पर तरस न खाना ॥
- १३ अपनी रैली में भांति भांति के अर्थात् घटती
- १४ बढ़ती बटखरे न रखना । अपने घर में भांति भांति के
- १५ अर्थात् घटती बढ़ती नपुए न रखना । तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हों इस लिये कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उस में तेरे बहुत दिन हों । क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं सो सब तेरे परमेश्वर यहोवा को धिनौने लगते हैं ॥
- १७ स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आता
- १८ था तब अमालेक ने तुझ से मार्ग में क्या किया । अर्थात् वह जो परमेश्वर का भय न मानता था इस से उस ने मार्ग में जब तू थका मंदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सब से पीछे थे उन सभी को
- १९ मारा । सो जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे तब अमालेक का नाम तक धरती पर से मिटा डालना इसे न भूलना ॥

## २६. फिर जब तू उस देश में पहुंचे जिसे

- तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है और उस का अधिकारी होकर
- १ उस में बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उस की भूमि की भांति भांति की जो पहिली उपज तू अपने घर लाएगा उस में से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का
- २ निवास करने को चुन ले । और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना कि मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के साम्हने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पितरों से किरिया खाई थी
- ४ उस में मैं आ गया हूँ । तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के साम्हने धर दे ।
- ५ तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से यों कहना कि मेरा मूल पुरुष नाश होने के निकट एक अरामी मनुष्य था और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा और वहां उस से एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई ।
- ६ और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और
- ७ हमें दुख दिया और हम से कठिन सेवा कराई । पर हम

(२) मूल में आकाश के तले से ।

ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख भ्रम और अंधेर पर दृष्टि की । और यहोवा अलबन्त हाथ और बढ़ाई हुई मुजा से अति भयानक चिन्ह और चमस्कार करके हम को मिस्र से निकाल लाया, और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं दे दिया है । सो अब हे यहोवा देख जो भूमि तू ने मुझे दी है उस की पहली उपज में तेरे पास ले आया हूँ । तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने रखना और यहोवा को दराइवत करना । और जितने अन्धे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे धराने को दे उन के कारण तू लेवीयों और अपने बीच रहनेहारों परदेशियों सहित आनन्द करना ॥

तीसरे बरस जो दशमांश देने का बरस ठहरा है जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश का निकाल चुके तब उसे लेवीय परदेशी बपमूए और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों । और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, कि मैं ने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय परदेशी बपमूए और विधवा को दे दिया है तेरी किसी आज्ञा को मैं ने न तो टाला है न बिसराया । उन वस्तुओं में से मैं ने शोक के समय नहीं खाया और न उन में से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और न कुछ शोक करनेवालों को दिया मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा का सुन ली मैं ने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है । तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशिष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशिष दे जो तू ने हमारे पितरों से खाई हुई किरिया के अनुसार हमें दिया है ॥

आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को इन्हीं विधियों और नियमों के मानने की आज्ञा देता है सो अपने सारे मन और सारे जीव से इन के मानने में चौकसी करना । तू ने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बनाये हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा । और यहोवा ने भी आज तुझ को अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन माना है कि तू उस की सब आज्ञाओं को माना करे, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों

(१) मूल में मुर्दे के लिये ।

से अधिक प्रशंसा नाम और शोभा के विषय तुम्हें को भेड़ करे और तू उस के कहे के अनुसार अपने परमेश्वर यहीवा की पवित्र प्रजा बना रहे ॥

(आशिष और साप)

**२७. फिर** इस्राएल के पुरनियों समेत मूसा ने

- प्रजा के लोगों के यह आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएँ मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सब २ को मानना । और जब तुम यर्दन पार होके उस देश में पहुँचों जो तेरा परमेश्वर यहीवा तुम्हें देता है तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पीतना । ३ और पार होने के पीछे उन पर इस व्यवस्था के सारे बच्चों को लिखना इसलिये कि जो देश तेरे पितरों का परमेश्वर यहीवा अपने बचन के अनुसार तुम्हें देता है और उस में दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं उस देश में तू ४ जाने पाए । फिर जिन पत्थरों के विषय मैं ने आज आज्ञा दी है उन्हें तुम यर्दन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा ५ करना और उन पर चूना पीतना । और वहीं अपने परमेश्वर यहीवा के लिये पत्थरों की एक वेदी बनाना ६ उन पर कोई लोखर न चलाना । अपने परमेश्वर यहीवा की वेदी अनगड़े पत्थरों की बनाकर उन पर उस के लिये ७ होमबलि चढ़ाना । और वहीं मेलबलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहीवा के सन्मुख ८ आनन्द करना । और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सारे बच्चों को साफ साफ लिख देना ॥ ९ फिर मूसा और लेवीय याजकों ने सारे इस्राएलियों से यह भी कहा कि हे इस्राएल चुप रहकर सुन आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहीवा की प्रजा हो गया है । १० सो अपने परमेश्वर यहीवा की मानना और उस की जो जे आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन को पूरा करना ॥ ११ फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह १२ आज्ञा दी कि, जब तुम यर्दन पार हो जाओ तब शिमोन लेवी यहूदा इस्राएल यूसफ और बिन्यामीन ये गिरिज्जीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए । १३ और रूबेन गाद आशैर जबूलून दान और नसाली ये १४ एबाल पहाड़ पर खड़े होके साप सुनाए । तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकारके कहें ॥ १५ सापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर वा ढलवाकर निराले स्थान थापे क्योंकि यह यहीवा को घिनीना लगता है । तब सब लोग कहें आमेन ॥

सापित हो वह जो अपने पिता वा माता को तुच्छ १६ जाने । तब सब लोग कहें आमेन ॥

सापित हो वह जो किसी दूसरे के सिवाने को १७ हटाए । तब सब लोग कहें आमेन ॥

सापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे । तब १८ सब लोग कहें आमेन ॥

सापित हो वह जो परदेशी बपमूए वा विधवा का १९ न्याय बिगाड़े । तब सब लोग कहें आमेन ॥

सापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म २० करे क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उधारता है । तब सब लोग कहें आमेन ॥

सापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म २१ करे । तब सब लोग कहें आमेन ॥

सापित हो वह जो अपनी बहिन चाहे सगी हो चाहे २२ सौतेली उस से कुकर्म करे । तब सब लोग कहें आमेन ॥

सापित हो वह जो अपनी दास के संग कुकर्म २३ करे । तब सब लोग कहें आमेन ॥

सापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे । तब २४ सब लोग कहें आमेन ॥

सापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के २५ लिये धन ले । तब सब लोग कहें आमेन ॥

सापित हो वह जो इस व्यवस्था के बच्चों को २६ मानकर पूरा न करे । तब सब लोग कहें आमेन ॥

**२८. यदि** तू अपने परमेश्वर यहीवा की सब आज्ञाएँ जो मैं आज तुम्हें

- सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उस की सुने तो वह तुम्हें पृथिवी की सब जातियों में श्रेष्ठ २ करेगा । फिर अपने परमेश्वर यहीवा की सुनने के कारण ३ ये सब आशीर्वाद तुम्हें पर पूरे होंगे । धन्य हो तू नगर ४ में धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी सन्तान और तेरी ५ भूमि की उपज और गाय और मेड़बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो ६ तू भीतर आते धन्य हो तू बाहर जाते । यहीवा ऐसा करेगा ७ कि तेरे शत्रु जो तुम्हें पर चढ़ाई करेंगे सो तुम्हें से हार जाएंगे वे एक मार्ग से तुम्हें पर चढ़ाई करेंगे पर तेरे साम्हने से सात मार्ग होकर भाग जाएंगे । तेरे खेतों पर ८ और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहीवा आशिष देगा सो जो देश तेरा परमेश्वर यहीवा तुम्हें देता है उस में वह तुम्हें आशिष देगा । यदि तू अपने परमेश्वर यहीवा की आज्ञाओं को ९ मानते हुए उस के मार्गों पर चले तो वह अपनी किरिया के अनुसार तुम्हें अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर

- १० रक्खेगा । तो पृथिवी के देश देश के लोग यह देख कर  
 ११ कि तू यहोवा का कहलाता है? तुझ से डर जाएंगे । और  
 जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पितरों से किरिया  
 खाकर तुझ को देने कहा था उस में वह तेरे सन्तान भूमि  
 की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई  
 १२ करेगा । यहोवा तेरे लिये अपने आकाशरूपी उत्तम  
 भण्डार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया  
 करेगा और तेरे सारे कामों पर आशिष देगा तो तू बहुतेरी  
 जातियों को उधार देगा पर किसी से तुझे उधार लेना  
 १३ न पड़ेगा । और यहोवा तुझ को पंख नहीं सिर ही  
 ठहराएगा और तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा यदि परमेश्वर  
 यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझ को सुनाता हूँ तू  
 १४ उन के मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन  
 वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उन में से किसी  
 से दहिने वा बाएँ मुँहके पराये देवताओं के पीछे न हो  
 ले और न उन की सेवा करे ॥
- १५ परन्तु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की न सुने  
 और उस की सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में  
 जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी न करे तो ये सब  
 १६ स्राप तुझ पर पड़ेंगे । अर्थात् स्थापित हो तू नगर में स्थापित  
 १७ हो तू खेत में । स्थापित हो तेरी टोकरी और तेरी  
 १८ कठौती । स्थापित हो तेरी सन्तान और भूमि की उपज और  
 १९ गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे । स्थापित हो तू भीतर  
 २० आते और स्थापित हो तू बाहर जाते । फिर जिस जिस  
 काम में तू हाथ लगाए उस में यहोवा तब लौ तुझ को  
 स्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा  
 जब लौ तू न मिट जाए और शीघ्र नाश न हो जाए  
 इस कारण कि तू यहोवा को त्यागकर दुष्ट काम करेगा ।  
 २१ यहोवा ऐसा करेगा कि भरी तुझ में फैलकर तब लौ  
 लगी रहेगी जब लौ जिस भूमि के अधिकारी होने को  
 २२ तू जाता है उस पर से तेरा अन्त न हो जाए । यहोवा  
 तुझ को चर्याग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन  
 से और तलवार और भुलस और गेरूई से मारेगा और ये  
 तब लौ तेरा पीछा किये रहेंगे जब लौ तू सत्यानाश न  
 २३ हो जाए । और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और  
 २४ तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी । यहोवा तेरे  
 देश में पानी के बदले बालू और धूलि बरसाएगा वह  
 आकाश से तुझ पर यहां लौ बरसेगी कि तू सत्यानाश  
 २५ हो जाएगा । यहोवा तुझ को शत्रुओं से हरबाएगा और  
 तू एक मार्ग से उन का साम्हना करने को जाएगा पर

(१) मूल में यहोवा का नाम तुझ पर प्रकाश गया है ।

(२) मूल में चिमटी ।

सात मार्ग होकर उन के साम्हने से भाग जाएगा और  
 पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा । और तेरी २६  
 लोथ आकाश के भाँति भाँति के पक्षियों और धरती के  
 पशुओं का आहार होगी और उन का कोई हाँकनेद्वारा  
 न होगा । यहोवा तुझ को मिस्र के से फोड़े और बवासीर २७  
 दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न  
 हो सकेगा । यहोवा तुझे बौरहा और अंधा कर देगा २८  
 और तेरे मन को अति घबरा देगा । और जैसे अंधा २९  
 अधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दुपहरी को टटो-  
 लता फिरेगा और तेरे काम काज सुफल न होंगे और  
 सब दिन तू केवल अंधेर सहता और छुटता ही रहेगा  
 और तेरा कोई छुड़ानेद्वारा न होगा । तू खी से ब्याह की ३०  
 बात लगाएगा पर दूसरा पुरुष उस को अष्ट करेगा घर  
 तू बनाएगा पर उस में बसने न पाएगा दाख की बारी  
 तू लगाएगा पर उस के फल खाने न पाएगा । तेरा बैल ३१  
 तेरे देखते मारा जाएगा और तू उस का मांस खाने न  
 पाएगा तेरा गदहा तेरी आँख के साम्हने लूट में चला  
 जाएगा और तुझे फिर न मिलेगा तेरी भेड़ बकरियाँ तेरे  
 शत्रुओं के हाथ लग जाएंगी और तेरी ओर से उन का  
 कोई छुड़ानेद्वारा न होगा । तेरे बेटे बेटियाँ दूसरे देश के ३२  
 लोगों के हाथ लग जाएंगी और उन के लिये चाब से  
 देखते देखते तेरी आँखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस न  
 चलेगा । तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक ३३  
 अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सब दिन तू केवल  
 अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा, यहां लौ कि तू ३४  
 उन बातों के मारे जो अपनी आँखों से देखेगा बौरहा  
 हो जाएगा । यहोवा तेरे धुटनों और टांगों में बरन नख ३५  
 से सिल लौ भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझ को पीड़ित  
 करेगा । यहोवा तुझ को उस राजा समेत जिस को तू ३६  
 अपने ऊपर ठहरायेगा तेरी और तेरे पितरों की अनजानी  
 एक जाति के बीच पहुँचाएगा और उस के बीच रहकर  
 तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना  
 करेगा । और उन सब जातियों में जिन के बीच यहोवा ३७  
 तुझ को पहुँचाएगा लोग तुझे देख कर चकित होने का  
 और हृष्टान्त और स्राप का कारण मानेंगे । तू खेत में ३८  
 बीज तो बहुत से ले जाएगा पर उपज थोड़े ही बटो-  
 रेगा क्योंकि टिट्टियाँ उसे खा जाएंगी । तू दाख की ३९  
 बारियाँ लगाकर उन में काम तो करेगा पर उन की  
 दाख का मधु पीने न पाएगा बरन फल भी तोड़ने न  
 पाएगा क्योंकि कौड़े उन को खा जाएंगी । तेरे सारे देश ४०  
 में जलपाई के वृक्ष तो होंगे पर उन का तेल तू अपने

(३) मूल में पाँव के तल्ले ।

- ४१ शरीर में लहाने न पाएगा क्योंकि वे भड़ जाएंगी । तेरे  
बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे पर तेरे रहेंगे नहीं क्योंकि वे  
४२ बन्धुभाई में चले जाएंगे । तेरे सारे वृद्ध और तेरी भूमि  
४३ की उपज टिड्डियां खा जाएंगी । जो परदेशी तेरे बीच  
रहेगा सो तुझ से बढ़ता जाएगा और तू आप घटता  
४४ चला जाएगा । वह तुझ को उधार देगा पर तू उस को  
उधार न दे सकेगा वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा ।  
४५ तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और  
विधियों के मानने को उस की न सुनेगा इस कारण ये  
सब स्थाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे  
और तुझ को पकड़ेंगे और अन्त में तू नाश हो जाएगा ।  
४६ और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा लों बने रह कर  
४७ चिह्न और चमत्कार ठहरेंगे, तू जो सब पदार्थ की बहु-  
तायत होने पर आनन्द और प्रसन्नता के साथ अपने  
४८ परमेश्वर यहोवा की सेवा न करता रहेगा, इस कारण  
तुझ को भूखा व्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित  
होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें  
यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा और जब लों तू नाश न हो  
जाए तब लों वह तेरी गर्दन पर लोहे का जूआ डाल  
४९ रक्खेगा । यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से बरन पृथिवी की छोर  
से वेग उड़नेहारे उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा  
५० जिस की भाषा तू न समझेगा । उस जाति के लोगों की  
चेष्टा क्रूर होगी वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर  
५१ करेंगे न बालकों पर दया करेंगे । और वे तेरे पशुओं के  
बन्धे और भूमि की उपज यहां लों खा जाएंगे कि तू नाश  
हो जाएगा और वे तेरे लिये न अन्न न नया दाखमधु न  
टटका तेल न बकड़े न मेम्ने छोड़ेंगे यहां लों कि तू नाश  
५२ हो जाएगा । और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिये हुए  
भारे देश के सब फाटकों के भीतर तुम्हें घेर रक्खेंगे वे  
तेरे सब फाटकों के भीतर तुम्हें तब तक घेरेंगे जब तक  
तेरे सारे देश में तेरी ऊंचा ऊंची और दृढ़ शहरपनाहें  
५३ जिन का तू भरोसा करेगा न गिर जाए । तब घिर जाने  
और उस सकेती के समय जिस में तेरे शत्रु तुझ को  
डालेंगे तू अपने निज जन्माथे बेटे बेटियां जिन्हें तेरा पर-  
५४ मेश्वर यहोवा तुझ को देगा उन का मांस खाएगा । बरन  
तुझ में जो पुरुष कामल और अति सुकुमार हो वह भी  
अपने भाई और अपनी प्राणप्यारी और अपने बच्चे हुए  
५५ बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा, और वह उन में से  
किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप  
खाएगा कुछ न देगा क्योंकि घिर जाने और उस सकेती में  
जिस में तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुम्हें घेर के  
५६ डालेंगे उस के पास कुछ न रहेगा । और तुझ में जो स्त्री

वहां लों कामल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और  
कामलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो वह  
भी अपने प्राणप्रिय पति और बेटे और बेटों को, अपनी ५७  
खेरी बरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी  
क्योंकि घिर जाने और उस सकेती के समय जिस में तेरे  
शत्रु तुम्हें तेरे फाटकों के भीतर घेरके डालेंगे वह सब  
वस्तुओं का घटी के मारे उन्हें छिपके खाएगी । यदि ५८  
इस व्यवस्था के सारे बच्चों के पालने में जो इस पुस्तक  
में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरयोग्य और भययोग्य  
नाम का जो तेरे परमेश्वर यहोवा का है भय न माने, तो ५९  
यहोवा तुझ को और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दण्ड  
देगा वे दुष्ट और बहुत दिन रहनेहारे रोग और भारी  
भारी दण्ड होंगे । और वह मिस्र के उन सब रोगों को ६०  
फिर तेरे लगा देगा जिन से तू भय खाता था और वे तेरे  
लगे रहेंगे । बरन जितने रोग आदि दण्ड इस व्यवस्था ६१  
की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सभी को भी यहोवा  
तुझ को यहां लों लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा ।  
और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा इस ६२  
कारण आकाश के तारों के समान अनगिनित होने का  
सन्ती तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे । और जैसे ६३  
अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष  
होता है वैसे ही तब उस को तुम्हें नाश बरन सत्यानाश  
करने से हर्ष होगा और जिस भूमि के अधिकारी होने को  
तुम जाने पर हो उस पर से तुम उखाड़े जाओगे । और ६४  
यहोवा तुझ को पृथिवी की इस छोर से ले उस छोर लों  
के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा और वहां  
रहके तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काठ  
और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा । और ६५  
उन जातियों में तू कभी चैन न पायेगा न तेरे पांव को  
ठिकाना मिलेगा क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा  
हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुन्धली पड़ जाएंगी  
और तेरा मन कल्पता रहेगा । और तुझ को जीवन का ६६  
नित्य सन्देह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और  
तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा । तेरे मन में जो घास ६७  
बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दीखता रहेगा उस  
के कारण तू मार को आह मारके कहेगा कि सांभ कब  
होगी और सांभ को आह मारके कहेगा कि मार कब  
हीगा । और यहोवा तुझ को नावों पर चढ़ाकर मिस्र में ६८  
उस मार्ग से लौटा देगा जिस के विषय मैं ने तुझ से  
कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा और वहां  
तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिये  
बिकाऊ तो रहोगे पर तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा ॥



## २९. जिस वाचा के इस्तेमालियों से बांधने

की आवाज यहीवा ने मूसा को  
शुआब के देश में दी उस के ये ही वचन हैं जो वाचा  
उस ने उन से हीरेब पहाड़ पर बांधी थी उस से यह  
अलग है ॥

- २ फिर मूसा ने सब इस्तेमालियों को बुलाकर कहा  
जो कुछ यहीवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरान  
और उस के सब कर्मचारियों और उस के सारे देश से
- ३ किया सो तुम ने देखा है । वे बड़े बड़े परीक्षा के काम  
और चिह्न और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के साम्हने
- ४ हुए, पर यहीवा ने आज लो तुम को न तो समझने की  
बुद्धि और न देखने की आंखें न सुनने के कान दिये हैं ।
- ५ मैं तो तुम को जंगल में चालीस बरस लिये फिरा और न  
तुम्हारे वरु पुराने हो तुम्हारे तन पर न तेरी जूतियां तेरे
- ६ पैरों में पुरानी पड़ीं । रोटी जो तुम नहीं खाने पाये और  
दाखमधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाये सो इस  
लिये हुआ कि तुम जानो कि मैं यहीवा तुम्हारा परमेश्वर
- ७ हूँ । और जब तुम इस स्थान पर आये तब हेरबोन का  
राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग ये दोनों युद्ध  
के लिये हमारा साम्हना करने को निकल आये और हम
- ८ ने उन को जीत कर, उन का देश ले लिया और रुबेनियों  
गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को निज
- ९ भाग करके दे दिया । सो इस वाचा की बातों को पालन  
करो इसलिये कि जो कुछ करो सो सुफल हो ॥
- १० आज क्या पुरनिये क्या सरदार तुम्हारे मुख्य मुख्य
- ११ पुरुष क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इस्तेमाली पुरुष क्या  
तुम्हारे बालबच्चे और किरिया क्या लकड़हारे क्या पनभरे  
क्या तेरी छावनी में रहनेहारे परदेशी तुम सब के सब  
अपने परमेश्वर यहीवा के साम्हने इसलिये खड़े हुए
- १२ हो, कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहीवा आज तुम्ह से  
बांधता है और जो किरिया वह आज तुम्ह को खिलाता
- १३ है उस में तू साम्नी हो जाए, इसलिये कि उस वचन के  
अनुसार जो उस ने तुम्ह को दिया और उस किरिया के  
अनुसार जो उस ने इब्राहीम इसहाक और याकूब तेरे  
पितरों से खाई थी वह आज तुम्ह को अपनी प्रजा
- १४ उदरए और आप तेरा परमेश्वर उदरे । फिर मैं इस
- १५ वाचा और इस किरिया में केवल तुम को नहीं पर उन  
को भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहीवा  
के साम्हने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं
- १६ हैं उन में साम्नी करता हूँ । तुम जानते हो कि जब हम  
मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग में की जातियों के
- १७ बीच बीच होकर आते थे, तब तुम ने उन की कैसी कैसी

चिनीनी बस्तुएं और काठ पत्थर चांदी सोने की कैसी  
मूरतें देखीं । सो ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई १८  
पुरुष वा स्त्री वा कुल वा गोत्र भर के लोग हों जिन का  
मन आज हमारे परमेश्वर यहीवा से फिरे कि जाकर उन  
जातियों के देवताओं की उपासना करें फिर ऐसा न हो  
कि तुम्हारे बीच ऐसी कोई जड़ हो जिस से विष वा कड़वा  
बीज अंकुरा हो, और ऐसा मनुष्य इस स्थाप के वचन १९  
सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह  
सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूँ और तृप्त  
होकर प्यास को मिटा डालूँ तौभी मेरा कुशल होगा ।  
यहीवा उस का पाप क्षमा करने से नाह करेगा बरन तब २०  
यहीवा के कोप और जलन का धंधा उस को छा देगा  
और जितने स्थाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर  
आ पड़ेंगे और यहीवा उस का नाम धरती पर से मिटा  
देगा । और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की २१  
चर्चा है उस के सब स्थापों के अनुसार यहीवा उस को  
इस्तेमाल के सब गोत्रों में से हानि के लिये अलगाएगा ।  
सो होनहारी पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे २२  
पीछे उत्पन्न होंगे और बिराने मनुष्य भी जो दूर देश से  
आएंगे वे उस देश की विपत्तियां और उस में यहीवा के  
फैलाये हुए रोग देख कर, और यह भी देखकर कि इस २३  
की सब भूमि गंधक और लौह से भर गई और यहाँ लो  
जल गई है कि इस में न कुछ बोया जाता न कुछ  
जमता न घास उगती है बरन सदीम और अमोरा  
अदमा और सबोयीम के समान हो गया है जिन्हें यहीवा  
ने कोप और जलजलाहट करके उलट दिया था, और २४  
सब जातियों के लोग पूछेंगे यहीवा ने इस देश से ऐसा  
क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण  
है । तब लोग यह उत्तर देंगे कि उन के पितरों के २५  
परमेश्वर यहीवा ने जो वाचा उन के साथ मिस्र देश से  
निकालने के समय बांधी थी उस को उन्होंने तोड़ा, और २६  
पराये देवताओं की उपासना की जिन्हें वे पहिले न  
जानते थे और यहीवा ने उन को नहीं दिया था, सो २७  
यहीवा का कोप इस देश पर भड़क उठा कि पुस्तक में  
लिखे हुए सब स्थाप इस पर आ पड़ें । और यहीवा ने कोप २८  
जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उन के देश  
में से उखाड़ दूसरे देश में फेंक दिया जैसा आज प्रगट है ॥  
गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहीवा के वंश में हैं २९  
पर जो प्रगट की गई हैं सो सदा लो हमारे और हमारे

(१) वा प्यास पर मतवालापन भी बढ़कं वा प्यास और तृप्त दोनों  
को मिटा डालूँ ।

(२) मूल में आकाश के लोके हैं ।

वंश के वंश में रहेंगी इसलिये कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए ॥

**३०. फिर** जब आशिष और साप की ये सब बातें जो मैं ने तुम्ह को कह सुनाई हैं तुम्ह पर घटें और तू उन सब जातियों के बीच रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहीवा तुम्ह को बरबस पहुंचाएगा इन बातों को चेत करे, और अपनी सन्तान सहित अपने सारे मन और सारे जीव से अपने परमेश्वर यहीवा की ओर फिर के उस के पास आए और इन सब आशाओं के अनुसार जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उस की माने, तब तेरा परमेश्वर यहीवा तुम्ह को बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुम्ह पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिन के बीच वह तुम्ह को तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा । चाहे धरती की छोर लों तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तौभी तेरा परमेश्वर यहीवा तुम्ह को वहां से ले आके इकट्ठा करेगा । और तेरा परमेश्वर यहीवा तुम्हें उसी देश में पहुंचाएगा जिस के तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे और तू फिर उस का अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुम्ह को तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा । और तेरा परमेश्वर यहीवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहीवा से अपने सारे मन और सारे जीव के साथ प्रेम रखे जिस से तू जीता रहेगा । और तेरा परमेश्वर यहीवा ये सब साप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुम्ह से बैर करके तेरे पीछे पढ़ेंगे घटाएगा । और तू फिरके यहीवा की सुनेगा और इन सब आशाओं को मानेगा जो मैं आज तुम्ह को सुनाता हूँ । और यहीवा तेरी भलाई के लिये तेरे सब कामों में और तेरी सन्तान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा क्योंकि यहीवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिये वैसा आनन्द करेगा जैसा उस ने तेरे पितरों के ऊपर किया था । क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहीवा की सुनकर उस की आशाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा और अपने परमेश्वर यहीवा की ओर अपने सारे मन और सारे जीव से फिरेगा ॥

११ देखो यह जो आशा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ सो  
१२ न तो तेरे लिये अनाखी और न दूर हैं । न तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिये आकाश में चढ़ उसे हमारे पास ले आए और हम को सुनाए कि  
१३ हम उसे मानें । और न यह समुद्र पार है कि तू कहे

कौन हमारे लिये समुद्र पार जा उसे हमारे पास ले आए और हम को सुनाए कि हम उसे मानें । पर यह वचन तेरे बहुत निकट बरन तेरे मुंह और मन ही में है सो तू इस पर चल सकता है ॥

सुन आज मैं ने तुम्ह को जीवन और मरण हानि और लाभ दिखाया है । कैसे कि मैं आज तुम्हें आशा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहीवा से प्रेम रखना और उस के मार्गों पर चलना और उस की आशाओं विधियों और नियमों को मानना इसलिये कि तू जीता रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहीवा उस देश में जिस का अधिकारी होने को तू जाने पर है तुम्हें आशिष दे । पर यदि तेरा मन फिर जाए और तू न सुने और बहक कर पराये देवताओं को दण्डवत् और उन की उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह जताता हूँ कि तुम निःसंदेह नाश हो जाओगे जिस देश का अधिकारी होने को तू यर्दन पार जाने पर है उस देश में तुम बहुत दिन रहने न पाओगे । मैं आज आकाश और पृथिवी दोनों को तुम्हारे साम्हने इस बात के साक्षी करता हूँ कि मैं ने जीवन और मरण आशिष और साप तुम्ह को दिखा दिये हैं सो जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीते रहें । सो अपने परमेश्वर यहीवा से प्रेम रखना और उसकी मानना और उस का बना रहना क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घजीविता यही है और ऐसा करने से जो देश यहीवा ने इब्राहीम इसहाक और याकूब तेरे पितरों को किरिया खाकर देने कहा था उस देश में तू बसा रहेगा ॥

(मूसा का प्रसिद्ध गीत)

**३१. ये हो** बातें मूसा ने सब इस्राएलियों से जाकर कहीं । और उस ने उन से

यह भी कहा कि आज मैं एक सौ बीस बरस का हुआ हूँ और अब मैं आने जाने न पाऊंगा क्योंकि यहीवा ने मुम्ह से कहा है कि तू इस यर्दन पार जाने न पाएगा । तेरे आगे पार जानेहारा तेरा परमेश्वर यहीवा है वह उन जातियों को तेरे साम्हने से नाश करेगा और तू उन के देश का अधिकारी होगा और यहीवा के कहे के अनुसार यहीवा तेरे आगे पार जाएगा । और जैसे यहीवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उन के देश को नाश किया वैसे ही वह उन सब जातियों से भी करेगा । और जब यहीवा उन को तुम से हरबा देगा तब तुम उन सारी आशाओं के अनुसार उन से करना जो मैं ने तुम को सुनाई हैं । दियाव बांधो और दृढ़ हो उन से न तो डरो और न त्रास खाओ क्योंकि तेरे संग

(१) मूल में आकाश ।

चलनेहारा तेरा परमेश्वर यहोवा है वह तुम्हें को बोला  
 ७ न देगा और न छोड़ेगा । तब मूसा ने यहोशू को बुला  
 कर सब इस्राएलियों के सन्मुख कहा हियाव बांध और  
 दृढ हो क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे  
 यहोवा ने इनके पितरों से किरिया खाकर देने का कहा  
 ८ था तू जाएगा और तू उसे इन का भाग कर देगा । और  
 तेरे आगे आगे चलनेहारा यहोवा है वह तेरे संग रहेगा  
 और न तो तुम्हें बोला देगा न छोड़ देगा सो मत डर  
 और तेरा मन कम्चा न हो ॥

९ फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों  
 को जो यहोवा की वाचा के सन्दूक उठानेहारे थे और  
 १० इस्राएल के सब पुरनियों को सौंप दी । तब मूसा ने उन  
 को आज्ञा दी कि सात सात बरस के बीते पर अर्थात्  
 उगाही न होने के बरस के भौंपड़ीवाले पर्व में जब सब  
 ११ इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा को उस स्थान पर जिसे  
 वह चुन लेगा हाजिर होने के लिये आएँ तब यह व्यवस्था  
 १२ सब इस्राएलियों का पढ़कर सुनाना । क्या पुरुष क्या स्त्री  
 क्या बालक क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी  
 सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और  
 तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मान कर इस व्यवस्था  
 १३ के सारे बचनों के पालन करने में चौकसी करें, और  
 उन के लड़केवाले जिन्होंने ये बातें नहीं सुनीं वे भी  
 सुनकर सीखें कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय तब  
 लों मानते रहें जब लों तुम उस देश में जीते रहो जिस  
 के अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जाने पर हो ॥

१४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा तेरे मरने का दिन  
 निकट है सो यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप-  
 वाले तम्बू में आकर हाजिर हो कि मैं उस को आज्ञा  
 दूँ । सो मूसा और यहोशू जाकर मिलापवाले तम्बू में  
 १५ हाजिर हुए । तब यहोवा ने उस तम्बू में बादल के खंभे  
 में होकर दर्शन किया और बादल का खंभा तम्बू के द्वार  
 १६ पर ठहर गया । तब यहोवा ने मूसा से कहा तू तो अपने  
 पुरखाओं के संग सो जाने पर है और ये लोग उठकर उस  
 देश के विराने देवताओं के पीछे जिन के बीच वे जाकर  
 रहेंगे व्यभिचारिन की भाई हो लेंगे और मुझे त्यागकर  
 १७ उस वाचा को जो मैं ने उन से बांधी है तोड़ेंगे । उस  
 समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग  
 कर इन से अपना मुँह छिपा लूँगा सो ये आहार हो  
 जाएंगे और बहुत सी विपत्तियाँ और बलेश इन पर आ  
 पड़ेंगी यहाँ लों कि ये उस समय कहेंगे क्या ये विपत्तियाँ  
 हम पर इस कारण आ नहीं पड़ीं कि हमारा परमेश्वर  
 १८ हमारे बीच नहीं रहा । उस समय मैं उन सब बुराईयों

के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरके करेंगे  
 निःसन्देह उन से अपना मुँह छिपा लूँगा । सो अब तुम १९  
 यह गीत लिख लो और तू इसे इस्राएलियों को सिखाकर  
 कंठ करा दे इसलिये कि यह गीत उन के विरुद्ध मेरा  
 साक्षी ठहरे । जब मैं इन को उस देश में पहुँचाऊँगा जिसे २०  
 देने की मैं ने इन के पितरों से किरिया खाई और जिस  
 में दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं और खाते खाते इन  
 का पेट भर जाएगा और ये दृष्टपुष्ट हो जाएंगे तब ये  
 पराये देवताओं की ओर फिरके उन की उपासना करने  
 लगेँगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़  
 देंगे । वरन अभी जब मैं इन्हें उस देश में जिस के विषय २१  
 मैंने किरिया खाई है पहुँचा नहीं चुका मुझे मालूम है  
 कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं सो जब बहुत सी  
 विपत्तियाँ और बलेश इन पर आ पड़ेंगे तब यह गीत इन  
 पर साक्षी देगा क्योंकि यह इन के वंश को न बिसर  
 जाएगा । सो मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इस्रा- २२  
 एलियों को सिखाया । और उस ने नून के पुत्र यहोशू २३  
 को यह आज्ञा दी कि हियाव बांध और दृढ हो क्योंकि  
 इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने का मैं ने उन  
 से किरिया खाई है तू पहुँचाएगा और मैं आप तेरे संग  
 रहूँगा ॥

जब मूसा इस व्यवस्था के वचन आदि से अन्त लों २४  
 पुस्तक में लिख चुका, तब उस ने यहोवा के सन्दूक २५  
 उठानेहारे लेवीयों को आज्ञा दी कि, व्यवस्था की इस २६  
 पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के  
 सन्दूक के पास रख दो कि यह वहाँ तुम्हें पर साक्षी देती  
 रहे । क्योंकि बलवा तेरा बलवा और दृढ मुझे मालूम २७  
 है देखो मेरे जीते और संग रहते भी तुम यहोवा से बलवा  
 करते आये हो फिर मेरे मरने के पीछे क्यों न करोगे ।  
 सो अपने गोत्रों के सब पुरनियों को और अपने सरदारों २८  
 को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उन को ये वचन सुनाकर  
 उन के विरुद्ध आकाश और पृथिवी दोनों को साक्षी  
 करूँ । क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मरने के पीछे तुम २९  
 बिलकुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की  
 आज्ञा मैं ने तुम को सुनाई है उस को तुम छोड़ दोगे और  
 अन्त के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा  
 के लेखे बुरा है अपनी बनाई हुई वस्तुओं के पूजने से  
 उस को रिस दिलाओगे तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी ॥

तब मूसा ने इस्राएल की सारी सभा को इस गीत ३०  
 के वचन आदि से अन्त लों सुनाये ॥

३२. हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूँ  
और हे पृथिवी मेरे मुँह की बातें सुन ॥

- १ मेरा उपदेश मेह की नाईं बरसेगा और मेरी बातें  
ओस की नाईं टपकेंगी  
जैसे कि हरी घास पर भीसी  
और पौधों पर झाड़ियाँ ॥
- २ मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूँगा तुम अपने  
परमेश्वर की महिमा को मानो ॥
- ४ वह चटान है उस का काम खरा है  
और उस की सारी गति न्याय की है वह सच्चा  
ईश्वर है उस में कुटिलता नहीं वह धर्मी और  
सीधा है ॥
- ५ पर इस जाति<sup>१</sup> के लोग टेढ़े और तिछे हैं  
ये बिगड़ गये ये उस के पुत्र नहीं यह उन का  
कलंक है ॥
- ६ हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगो  
क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो  
क्या वह तेरा पिता नहीं है जिस ने तुझ को  
मोल लिया है ?  
उस ने तुझ को बनाया और स्थिर भी किया है ॥
- ७ प्राचीनकाल के दिनों को स्मरण कर  
पीढ़ी पीढ़ी के बरसों को बिचारो  
अपने बाप से पूछो और वह तुम्हें बताएगा  
अपने पुरनियों से और वे तुझ से कह देंगे ॥
- ८ जब परमप्रधान ने एक एक जाति का निज निज  
भाग बाँट दिया  
और आदमियों को अलग अलग बसाया  
तब उस ने देश देश के लोगों के सिवाने  
इस्त्राएलियों की गिनती बिचार के ठहराये ॥
- ९ क्योंकि यहोवा का अंश उस की प्रजा है  
याकूब उस का नपा हुआ निज भाग है ॥
- १० उस ने उस को जंगल में  
और सुनसान और गरजनेहारों से भरी हुई मरु-  
भूमि में पाया  
उस ने उस के चारों ओर रहकर उस की  
सुधि रक्खी  
और अपनी भाख की पुतली की नाईं उस को  
रक्षा की ॥
- ११ जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर  
अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मण्डलाता है

वैसे ही उस ने अपने पंख फैलाकर  
उस को अपने पंखों पर उठा लिया ॥  
यहोवा अकेला ही उस की अगुवाई करता रहा १२  
और उस के संग कोई पराया देवता न था ॥  
उस ने उस को पृथिवी के ऊँचे ऊँचे स्थानों १३  
पर सवार करा  
खेतों की उपज खिलाई  
उस ने उसे दाँग में से मधु  
और चकमक की चटान में से तेल चाटने दिया ॥  
गायों का दही और भेड़बकरियों का दूध १४  
मेम्नों की चर्बी  
बकरे और बाशान की जाति के मेंढे  
और गौहूँ का उच्चम से उत्तम हीर भी  
और तू दाखरस का मधु पिया करता था ॥  
परन्तु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा १५  
तू मोटा और हृष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया  
तब उस ने अपने कर्ता ईश्वर को तजा,  
और अपने उद्धारमूल चटान को तुच्छ जाना ॥  
उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उस में जलन १६  
उपजाई  
और धिनौने काम करके उस को रिस दिलाई ॥  
उन्होंने पिशाचों के लिये बलि चढ़ाये जो ईश्वर १७  
न थे  
और उन के अनजाने देवता थे  
वे नये देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे  
और जिन का भय उन के पुरखा न मानते थे ॥  
जिस चटान से तू उत्पन्न हुआ उस को १८  
तू ने बिसराया -  
और ईश्वर जिस से तेरी उत्पत्ति हुई उस को तू  
मूल गया है ॥  
हमे देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना १९  
इस कारण कि उस के बेटे बेटियों ने रिस  
दिलाई थी ॥  
तब उस ने कहा मैं उन से अपना मुख २०  
छिपा लूँगा  
और देखूँगा उन का कैसा अन्त होगा  
क्योंकि इस जाति<sup>२</sup> के लोग बहुत टेढ़े हैं  
और धोखा देनेहारे पुत्र हैं ॥  
उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ २१  
में जलन उपजाई

और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस  
दिलाई  
तो मैं भी उन के द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उन  
के मन में जलन उपजाऊंगा  
और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा ॥  
२२ क्योंकि मेरे कोप की आग जल उठी है  
और अधोलोक के तल तक जलती पहुँचेगी  
और उस से अपनी उपज समेत पृथिवी भस्म  
हो जाएगी  
और पहाड़ों की नैवे भी उस से जल जाएंगी ॥  
२३ मैं उन पर विपत्ति पर विपत्ति डालूंगा  
उन पर मैं अपने सब तीर छोड़ूंगा ॥  
२४ वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से  
और कठिन महारोगों से ग्रस्त जाएंगे  
मैं उन पर पशुओं के दान्त लगवाऊंगा  
और धूलि पर रँगनेहारे सर्पों का विष ॥  
२५ बाहर वे तलवार से मरेंगे  
और भीतर भय से  
क्या कुमार क्या कुमारी  
क्या दूधपिउवा बच्चा क्या पक्के बालवाला  
वे मारे जाएंगे ।  
२६ मैं ने कहा था कि मैं उन को दूर तक तितर  
बितर करूंगा  
और मनुष्यों में से उन का स्मरण मिटा दूंगा ॥  
२७ पर मैं शत्रुओं के छेड़ने से डरता हूँ  
ऐसा न हो कि द्रोही इस को उलटा समझकर  
कहने लगें कि हम अपने ही बाहुबल से  
प्रबल हुए ।  
और यह सब यहोवा से नहीं हुआ ॥  
२८ यह जाति युक्तहीन तो है  
और इन में समझ है ही नहीं ॥  
२९ भला होता कि ये बुद्धिमान् होकर इस को समझ  
लेते  
और अपने अंत का विचार करते ॥  
३० यदि उन की चटान उन को न बँचती  
और यहोवा उन को औरों के हाथ में न कर देता  
तो यह क्योंकर हो सकता कि उन के हजार का  
पीछा एक करे  
और उन के दस हजार को दो भगाएँ ॥  
३१ क्योंकि जैसी हमारी चटान है वैसी उन की चटान  
नहीं है  
यह हमारे शत्रुओं का भी विचार है ।

उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली ३२  
और अमोरा की दाख की बारियों में की है  
उन की दाख विषभरी  
और उन के गुच्छे कड़वे हैं ॥  
उन का दाखमधु सर्पों का सा विष और काले ३३  
नागों का सा हलाहल है ॥  
क्या यह बात मेरे मन में संचित ३४  
और मेरे भंडारों में मुहरबन्द नहीं है ॥  
पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है ३५  
यह उन के पांव फिसलने के समय प्रगट होगा  
क्योंकि उन की विपत्ति का दिन निकट है और  
जो दुःख उन पर पड़नेहारे हैं सो शीघ्र आ  
रहे हैं ॥  
क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति ३६  
जाती रही  
और क्या बन्धुआ क्या स्वाधीन उन में कोई बचा  
नहीं रहा  
तब वह उन का विचार करेगा  
और अपने दासों के विषय पछुताएगा ॥  
तब वह कहेगा उन के देवता कहाँ रहे ३७  
अर्थात् जिस चटान की शरण वे लेते थे ॥  
जो उन के बलियों की चर्बी खाते ३८  
और उन के तपावनों का दाखमधु पीते थे वे  
क्या हो गये  
वे उठकर तुम्हारी सहायता करें  
और तुम्हारी आड़ हों ॥  
अब देखो कि मैं ही हूँ ३९  
और मेरे संग कोई देवता नहीं  
मैं मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ  
मैं घायल करता और मैं चंगा भी करता हूँ  
और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता ॥  
मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ ४०  
अपने सनातन जीवन की सोह  
यदि मैं विजली की तलवार पर सान धरकर ४१  
लपकाऊँ  
और अपना हाथ न्याय करने में लगाऊँ  
तो अपने द्रोहियों से पलटा दूंगा  
और अपने बैरियों को बदला दूंगा ॥  
मैं अपने तीरों को लोह से मतवाला करूंगा ४२  
और मेरी तलवार मांस खाएगी  
यह मारे हुआ और बन्धुओं का लोह  
और शत्रुओं के प्रधानों के सिर का मांस होगा ॥

- ३ हे अन्यजातियो उस की प्रजा के कारण जबजय-कार करो  
क्योंकि वह अपने दासों के लोहू बहाने का पलटा लेगा  
और अपने द्रोहियों को बदला देगा  
और अपने देश और अपनी प्रजा का पाप ढांप देगा ।
- ४४ इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे  
४५ समेत आकर लोगों को सुनाये । जब मूसा ये सब वचन  
४६ सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उस ने उन से कहा कि जितनी बातें मैं आज तुम से चिताकर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उन के अर्थात् इस अवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़केबालों को दो । क्योंकि यह तुम्हारे लिये व्यर्थ काम नहीं तुम्हारा जीवन ही है और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारे दिन बहुत होंगे जिस के अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जाने पर हो ॥
- ४८, ४९ फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अवारिम पहाड़ की नबो नाम चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के साम्हने है चढ़कर कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ उस को देख ले ।  
५० तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरके अपने लोगों में मिल गया वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर  
५१ मरेगा और अपने लोगों में मिल जाएगा । इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया कैसे कि इस्राएलियों के बीच मुझ पवित्र न ठहराया । सो वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूँ तू साम्हने देखेगा पर वहां जाने न पाएगा ॥

(मूसा का इस्राएलियों को दिया हुआ आशीर्वाद)

### ३३. जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने मरने से पहिले इस्राएलियों को

दिया सो यह है ॥

- १ उस ने कहा  
यहोवा सीने से आया  
और सेईर से उन के लिये उदय हुआ  
उस ने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया  
और लाली पवित्रों के बीच से आया  
उस के वहिने हाथ से उन की ओर भाग निकली ॥  
२ वह देश देश के लोगों से भी प्रेम रखता है ।  
पर तेरे सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं

- वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं  
एक एक तेरे वचनों में से पाता है ॥  
मूसा ने हमें व्यवस्था दी ४  
यह याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी ॥  
जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष ५  
और इस्राएल के गोत्री एक संग होकर एकट्टे हुए  
तब वह यशरून में राजा ठहरा ॥  
रूबेन न मरे जीता रहे ६  
पर उस के यहां के मनुष्य थोड़े हों ॥  
और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ मूसा ने कहा ७  
हे यहोवा यहूदा की दुन  
और उसे उस के लोगों के पास पहुंचा  
वह उन के लिये हाथ से लड़ा  
और तू उस के द्रोहियों के विरुद्ध उस की सहायता कर ॥  
फिर लेवी के विषय उस ने कहा ८  
तेरे तुम्मीम और ऊरीम तेरे भक्त के पास रहें जिस के तू ने मस्सा में परख लिया  
और मरीबा नाम सोते पर उस से वादविवाद किया ॥  
उस ने तो अपने माता पिता के विषय कहा मैं ९  
उन को नहीं जानता  
और न तो अपने भाइयों को अपने मान लिया  
न अपने पुत्रों को पहिचाना  
पर उन्हों ने तेरी बातें मानी  
और तेरी वाचा पाखी है ॥  
वे याकूब के तेरे नियम १०  
और इस्राएल के तेरी व्यवस्था सिखाएंगे  
और तेरे सूंघने को धूप  
और तेरी वेदी पर सर्वाङ्ग पशु को होमबलि करेंगे ॥  
हे यहोवा उस की संपत्ति पर आशिष दे ११  
और उस के हाथ के काम से प्रसन्न हो  
उस के विरोधियों और वैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सकें ॥  
फिर उस ने बिन्यामीन के विषय में कहा १२  
यहोवा का वह प्रिय जन उस के पास निडर  
बास करेगा  
और वह दिन भर उस पर छाया करेगा  
और वह उस के कंधों के बीच रहा करेगा ॥  
फिर यूसफ के विषय में उस ने कहा १३  
इस का देश यहोवा से आशिष पाए  
अर्थात् आकाश के अनमोल पदार्थ और ओस  
और नीचे पड़ा हुआ गहिरा जल

३३ अध्याय ।

- १४ और जो अनमोल पदार्थ सूर्य के उपजाये प्राप्त होते ।
- १५ और जो अनमोल पदार्थ चंद्रमा के उगाये उगते हैं और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ
- १६ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ और पृथिवी और जो अनमोल पदार्थ उस में भरे हैं और जो झाड़ी में रहा था उस की प्रसन्नता इन सभी के विषय यूसफ के सिर पर अर्थात् इसी के चोएडे पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था आशिष ही आशिष फले ॥
- १७ वह प्रतापी है मानों गाय का पक्षिलौटा है और उस के सींग बनैले बैल के से हैं उन से वह देश देश के लोगों को बरन पृथिवी की छोर लों के सब मनुष्यों को धकियाएगा वे एप्रैम के लाखों और मनश्शे के हजारों हैं ॥
- १८ फिर जबूलून के विषय उस ने कहा है जबूलून तू निकलते समय और हे इत्साकार तू अपने डेरों में आनन्द करे ॥
- १९ वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे वे वहाँ धर्म से यज्ञ करेंगे क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ भोगेंगे ॥
- २० फिर गाद के विषय उस ने कहा धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है गाद तो सिहनी के समान रहता और बाँह को सिर के चोएडे सहित फाड़ डालता है ॥
- २१ और उस ने पहिला अंश तो अपने लिये घन लिया क्योंकि वहाँ रईस के योग्य भाग रखा हुआ था सो उस ने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इत्साएल के साथ होकर उसके नियम माने ॥
- २२ फिर दान के विषय उस ने कहा दान तो बाशान से कूदनेहारा सिंह का डोंबरू है ॥
- २३ फिर नसाती के विषय उस ने कहा हे नसाती तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उस की आशिष से भरपूर है तू पच्छिम और दक्खिन के देश का अधिकारी होए ॥
- २४ फिर आशेर के विषय उस ने कहा आशेर पुत्रों के विषय आशिष पाए

- वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पाँव तैल में बोरा करे ॥
- तेरे बँड़े छोड़े और पीतल के होए २५
- और तू अपने जीवन भर चैन से रहे ॥
- हे यशूरून ईश्वर के तुल्य कोई नहीं है २६
- वह तेरी सहायता करने का आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाशमण्डल पर सवार होकर चलता है ॥
- अनादि परमेश्वर तेरा घाम है २७
- और तेरे नीचे सनातन भुजाएँ हैं
- वह शत्रुओं को तेरे साम्हने से निकाल देता और कहता है सत्यानाश कर ॥
- सो इत्साएल निडर बसा रहता है २८
- अब और नये दाखमधु के देश में याकूब का सेता अकेला ही रहता है
- और उस के ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है ॥
- हे इत्साएल तू क्या ही धन्य है २९
- हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कान है ।
- वह तो तेरी सहायता के लिये ढाल और तेरे प्रताप के लिये तलवार है
- सो तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे और तू उन के ऊँचे स्थानों को रोंदेगा ॥

(मूसा की मृत्यु)

३४. फिर मूसा मोआब के अराबा से नवो पहाड़ पर जो पिसगा का एक चोटी और यरीहो के साम्हने है चढ़ गया और यहोवा ने उस को दान लों का गिलाद नाम सारा देश, और नसाती का सारा देश और एप्रैम और मनश्शे का देश और पच्छिम के समुद्र लों का यहूदा का सारा देश, और दक्खिन देश और सोअर लों की यरीहो नाम खजूरवाले नगर की तराई यह सब दिखाया । तब यहोवा ने उस से कहा जिस देश के विषय मैं ने इब्राहीम इसहाक और याकूब से किरिया खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूँगा वह यही है मैं ने इस को तुम्हें साक्षात् दिखा दिया है पर तू पार होकर वहाँ न जाने पाएगा । सो यहोवा के कहके अनुसार उस का दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया । और उस ने उसे मोआब के देश में बेतपीर के साम्हने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन लों कोई नहीं जानता कि

(१) मूल में जैसे तेरे दिन वैसा तैय चैन ।

- ७ उस की कबर कहाँ है । मूसा मरने के समय एक सौ बीस बरस का था पर न तो उस की आँखें धुन्धली पड़ीं  
 ८ और न उस का पीरुष बटा था । और इस्राएली मोआब के अराबा में मूसा के लिये तीस दिन रोते रहे तब मूसा  
 ९ के लिये रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए । और नून का पुत्र यहोशू बुद्धि देनेहारे आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर टेके थे सो इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी  
 १० उस की मानते रहे । और मूसा के तुल्य इस्राएल में

और कोई नयी नहीं उठा कि यहोवा ने उस से आम्हने साम्हने बातें कीं<sup>१</sup>, और उस को यहोवा ने फिरीन ११ और उस के सब कर्मचारियों के साम्हने और उस के सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा, और उस ने गारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलबन्त हाथ १२ और बड़ा भय दिखाया ॥

(१) मूल में उस का आम्हने साम्हने जाना ।

## यहोशू नाम पुस्तक ।

(यहोशू का हियाव बंधाया जाना)

### १. यहोवा के दास मूसा के मरने के पीछे

- यहोवा ने उस के टहलुए यहोशू  
 २ से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है सो अब तू कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जो मैं इसे अर्थात्  
 ३ इस्राएलियों को देता हूँ । उस वचन के अनुसार जो मैं ने मूसा से कहा जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे  
 ४ वे सब मैं तुम्हें दे देता हूँ । जंगल और उस लवानोन से ले परात महानद लों और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र  
 ५ लों हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा । तेरे जीवन भर कोई तेरे साम्हने ठहर न सकेगा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूँगा न तो मैं तुम्हें छोखा दूँगा और न तुम्हें छोड़ दूँगा ।  
 ६ सो हियाव बांधकर दृढ़ हो क्योंकि जिस देश के देने की किरिया मैं ने इन लोगों के पितरों से खाई थी उस  
 ७ के अधिकारी तू इन्हें करेगा । इतना ही कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुम्हें दी है उस सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उस से न तो दृष्टि न मुड़ना और न बाएँ इस से जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ वहाँ तेरा काम सुफल होगा ।  
 ८ व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरे<sup>१</sup> इस में दिन रात ध्यान दिये रहना इसलिये कि जो कुछ

उस में लिखा है उस के अनुमार करने की तू चौकसी करे क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सुफल होंगे और तू सुभागी होगा । क्या मैं ने तुम्हें आज्ञा नहीं दी हियाव ९ बांधकर दृढ़ हो त्रास न खा और तेरा मन कच्चा न हो क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा ॥

(अर्थात् गोत्रों का आज्ञा मानना)

तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि, १० छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह ११ आज्ञा दो कि अपने अपने लिये भोजन तैयार कर रखो क्योंकि तीन दिन के भीतर तुम उस यर्दन पार उतरके वह देश अपने अधिकार में लेने को जाओगे जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में किये देता है ॥

फिर यहोशू ने रुबेनियों गादियों और मनश्शे के १२ आधे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास १३ मूसा ने तुम से कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा उस की सुधि करो । तुम्हारी स्त्रियाँ बालबच्चे और पशु तो इस देश में १४ रहें जो मूसा ने तुम्हें यर्दन के इसी पार दिया पर तुम जो शूरवीर हो सो पाति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उन की सहायता करो । और जब १५ यहोवा उन को ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिये हुए देश के अधिकारी हो जायेंगे तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यर्दन के इस पार सूर्योदय

(१) मूल में पुस्तक तेरे मुँह से न उतरे ।



की ओर तुम्हें दिया है लौटकर इस के अधिकारी होंगे ।  
 १६ तब उन्होंने ये यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तू ने हमें  
 करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे और जहाँ कहीं तू  
 १७ हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे । जैसे हम सब बातों में मूसा  
 की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे इतना हो कि  
 १८ ही तेरे संग भी रहे । कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध  
 चलवा करे और जितनी आज्ञाएँ तू दे उन को न माने  
 वह मार डाला जाएगा पर तू दृढ़ और हियाब बांधे रह ॥  
 (यरीहो का भेद लिया जाना)

**२. तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को**

शिलीम से चुपके भेज दिया और उन  
 से कहा जाकर उस देश और यरीहो को देखो तो वे चल  
 दिये और राहाब नाम किसी वैश्या के घर में जाकर सो  
 २ गये । तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात  
 कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आये  
 ३ हैं । तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यों कहला भेजा  
 कि जो पुरुष तेरे यहाँ आये हैं उन्हें बाहर ले आ क्योंकि  
 ४ वे नारे देश का भेद लेने को आये हैं । उस स्त्री ने दोनों  
 पुरुषों को छिपा रक्खा और यों कहा कि मेरे पास कई  
 ५ पुरुष आये तो वे पर मैं नहीं जानती कहां के हैं । और  
 जब अंधेरा हुआ और फाटक बन्द होने लगा तब वे निकल  
 गये मुझे मालूम नहीं कि वे कहां गये तुम फुर्ती करके  
 ६ उन का पीछा करो तो उन्हें जा लोगे । उस ने उन को  
 घर की छत पर चढ़ा ले जाकर सनई में छिपा दिया था  
 ७ जो उस ने छत पर सजा रक्खी थी । वे पुरुष तो यर्दन  
 का मार्ग ले उन की खोज में घाट लों चले गये और ज्यों  
 खोजनेहारे फाटक से निकले त्यों ही फाटक बन्द किया  
 ८ गया । और ये लेटने न पाये कि वह स्त्री छत पर इन के  
 ९ पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है  
 कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा  
 पास हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब  
 १० निवासी तुम्हारे कारण धबरा रहे हैं । क्योंकि हम ने  
 सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय  
 तुम्हारे साम्हने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम  
 लोगों ने सीहोन और ओग नाम यर्दन पार रहनेहारे  
 एमेरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है ।  
 ११ और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे  
 कारण किसी के जी में जी न रहा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर  
 यहोवा ऊपर के आकाश में और नीचे की पृथिवी में

परमेश्वर है । सो अब मैं ने जो तुम पर दया की है इस १२  
 लिये मुझ से यहोवा की किरिया खाओ कि हम भी तेरे  
 पिता के घराने पर दया करेंगे (और इस की सच्ची चिन्हानी  
 मुझे दो) और हम तेरे माता पिता भाइयों और बहिनों का १३  
 और उन के जितने हैं उन सबों को भी जीते रख छोड़ेंगे  
 और तुम सबों का प्राण मरने से बचाएंगे । तब उन १४  
 पुरुषों ने उस से कहा यदि तू हमारी यह बात किसी पर  
 प्रगट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाय  
 और जब यहोवा हम को यह देश देगा तब हम तेरे साथ  
 कृपा और सन्वाई से बर्ताव करेंगे । तब राहाब जिस का १५  
 घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी उस ने  
 उन को खिड़की से रस्ती के बल उतारके नगर के बाहर  
 कर दिया । और उस ने उन से कहा पहाड़ को चले १६  
 जाओ ऐसा न हो कि खोजनेहारे तुम को पाएँ तो जब  
 लों तुम्हारे खोजनेहारे लौट न आएँ तब लों अर्थात् तीन  
 दिन वहीं छिपे रहना उस के पीछे अपना मार्ग लेना ।  
 उन्होंने ने उस से कहा जो किरिया तू ने हम को खिलाई १७  
 है उस के विषय हम तो निर्दोष रहेंगे । सुन जब हम १८  
 लों इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तू ने हम  
 को उतारा है उस में यही लाही रंग के सूत की डोरी बांध  
 देना और अपने माता पिता भाइयों बरन अपने पिता के  
 सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना ।  
 तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उस के १९  
 खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे  
 पर यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का  
 हाथ पड़े तो उस के खून का दोष हमारे सिर पड़ेगा ।  
 फिर यदि तू हमारा यह बात किसी पर प्रगट करे तो जो २०  
 किरिया तू ने हम को खिलाई है उस से हम निर्दोष  
 ठहरेंगे । उस ने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार ही २१  
 तब उस ने उन को बिदा किया और वे चले गये  
 और उस ने लाही रंग की डोरी को खिड़की में बांध  
 दिया । और वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे और वहाँ खोजनेहारे २२  
 के लौटने लों अर्थात् तीन दिन रहे और खोजनेहारे उन  
 को सारे मार्ग में ढूँढते रहे और कहीं न पाया । सो उन २३  
 दोनों पुरुषों ने पहाड़ से उतर पार जा नून के पुत्र यहोशू  
 के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उस का  
 बखान किया । और उन्होंने ये यहोशू से कहा निःसंदेह २४  
 यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है फिर  
 इस के सिवाय उस के सारे निवासी हमारे कारण धबरा  
 रहे हैं ॥

(१) मूल में पिघल गये ।

(२) मूल में पिघल गये ।

(इस्त्राएलियों का यर्दन पार उतर जाना)

३. विहान को यहोशू सबेरे उठा और सब इस्त्राएलियों को साथ ले शिथीम से कूच कर यर्दन के तीर आया और वे पार उतरने से पहिले वहीं टिक गये । तीन दिन के बीते पर सरदारों ने छावनी के बीच जाकर, प्रजा के लोगों को यह आशा दी कि जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का सन्दूक और उसे उठाये हुए लेवीय याजक भी देख पड़ें तब अपने स्थान से कूच करके उस के पीछे पीछे चलना । पर उस के और तुम्हारे बीच में दो हजार हाथ के अटकल अन्तर रहे तुम सन्दूक के निकट न जाना कि तुम देख सको कि किस मार्ग से चलना होगा क्योंकि अब लों तुम उस मार्ग पर होकर नहीं चले । फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा अपने अपने को पवित्र कर रखो क्योंकि कल यहोवा तुम्हारे बीच आश्चर्यकर्म करेगा । तब यहोशू ने याजकों से कहा वाचा का सन्दूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो । सो वे वाचा के सन्दूक उठाकर आगे आगे चले । तब यहोवा ने यहोशू से कहा आज के दिन से मैं सब इस्त्राएलियों के सन्मुख तेरी बड़ाई करने का आरंभ करूंगा जिस से वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ । सो वे वाचा के सन्दूक के उठानेहारे याजकों को यह आशा दे कि जब तुम यर्दन के जल के किनारे पर पहुँचो तब यर्दन में खड़े रहना ॥

६. तब यहोशू ने इस्त्राएलियों से कहा पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुना । फिर यहोशू कहने लगा इस से तुम जान लोगे कि जीता हुआ ईश्वर तुम्हारे बीच है और वह तुम्हारे साम्हने से निःसंदेह कनानियों हित्तियों हित्तियों परिज्जियों गिराणियों एमोरियों और यबूसियों का उन के देश में से निकाल देगा । सुना पृथिवी भर के प्रभु की वाचा का सन्दूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन के बीच जाने पर है । सो अब इस्त्राएल के गोत्रों में से बारह पुरुषों को चुन लो वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हों । और जिस समय पृथिवी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का सन्दूक उठानेहारे याजकों के पाँव यर्दन के जल में पड़ेंगे उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा । सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यर्दन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का सन्दूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और सन्दूक के उठानेहारे यर्दन पर पहुँचे और सन्दूक के उठानेहारे याजकों के पाँव यर्दन के तीर के जल में डूब गये (यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों

के ऊपर ऊपर बहा करता है), तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था सो बहुत दूर अर्थात् आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और भीत सा उठा रहा और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहावता है उस की ओर बहा जाता था सो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के साम्हने पार उतर गये । सो याजक यहोवा की वाचा का सन्दूक उठाए हुए यर्दन के बीचोबीच पहुँचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इस्त्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे निदान उस सारी जाति के लोग यर्दन पार हो चुके ॥

४. जब उस सारी जाति के लोग यर्दन पार उतर चुके तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से बारह पुरुष अर्थात् गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर, यह आशा दे कि तुम यर्दन के बीच में जहाँ याजक लोग पाँव धरे थे वहाँ से बारह पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उन को रख देना । तब यहोशू ने उन बारह पुरुषों को जिन्हें उस ने इस्त्राएलियों के एक एक गोत्र में से छाँटकर ठहरा रखा था बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सन्दूक के आगे यर्दन के बीच में जाकर इस्त्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिस से यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरें और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछें कि इन पत्थरों का क्या प्रयोजन है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यर्दन का जल यहोवा की वाचा के सन्दूक के साम्हने से दो भाग हो गया जब वह यर्दन पार आता था तब यर्दन का जल दो भाग हो गया । सो वे पत्थर इस्त्राएलियों को सदा के लिये स्मरण दिलानेहारे रहेंगे । यहोशू की इस आशा के अनुसार इस्त्राएलियों ने किया जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने ने इस्त्राएली गोत्रों की गिनती के अनुसार बारह पत्थर यर्दन के बीच में से उठा लिये और उन को अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया । और यर्दन के बीच जहाँ याजक वाचा के सन्दूक को उठाये हुए अपने पाँव धरे थे वहाँ यहोशू ने बारह पत्थर खड़े कराये वे आज लों वहाँ पाये जाते हैं । और याजक सन्दूक उठाये हुए तब लों यर्दन के बीच खड़े रहे जब लों वे सब बातें पूरी न हो चुकीं जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आशा दी थी तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गये । और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का सन्दूक भी उन के देखते पार उतरे । और रुबेनी गादी और मनश्शे के आगे गोत्र के

- लोग मूसा के कहे के अनुसार इस्राएलियों के आगे पांति  
 १३ बांधे हुए पार गये । अर्थात् कोई चालीस हजार पुरुष  
 युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने को यहोवा के  
 साम्हने पार उतरके यरीहो के पास के अराबा में पहुँचे ।  
 १४ उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के साम्हने यहोशू  
 की महिमा बढ़ाई सी जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे  
 ही यहोशू का भी भय उस के जीवन भर मानते रहे ॥  
 १५, १६ यहोवा ने यहोशू से कहा कि, साक्षी का संदूक  
 उठानेहारे याजकों को आज्ञा दे कि, यर्दन में से निकल  
 १७ आओ । सी यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी कि यर्दन में  
 १८ से निकल आओ । और ज्यों यहोवा की वाचा का संदूक  
 उठानेहारे याजक यर्दन के बीच में से निकल आये और  
 उन के पाँव स्थल पर पड़े त्यों ही यर्दन का जल अपने  
 स्थान पर आया और पहिले की नाई कड़ारों के ऊपर  
 १९ फिर बहने लगा । पहिले महीने के दसवें दिन की प्रजा  
 के लोगों ने यर्दन में से निकलकर यरीहो के पूरबी  
 २० सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले । और जो बारह  
 पत्थर यर्दन में से निकले गये थे उन को यहोशू ने गिल-  
 २१ गाल में खड़े किया । तब उस ने इस्राएलियों से कहा  
 आगे की जब तुम्हारे लड़केवाले अपने अपने पिता से  
 २२ यह पूछें कि इन पत्थरों का क्या प्रयोजन है, तब तुम  
 यह कहकर उन को जताना कि इस्राएली यर्दन के पार  
 २३ स्थल ही स्थल चले आये थे । कैसे कि जैसे तुम्हारे परमेश्वर  
 यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे  
 साम्हने से हटाकर सुखा रक्खा था तैसे ही उस ने यर्दन  
 का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे साम्हने से  
 २४ हटाकर सुखा रक्खा, इसलिये कि पृथिवी के सब देशों के  
 लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवन्त है और तुम  
 सब दिन अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहे ॥

(इस्राएलियों का खतना किया जाना और फसह मानना)

#### ५. जब यर्दन की पच्छिम ओर रहनेहारे

एमारियों के सब राजाओं ने और  
 समुद्र के पास रहनेहारे कनानियों के सब राजाओं ने  
 यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने लों उन  
 के साम्हने से यर्दन का जल हटाकर सुखा रक्खा है  
 तब इस्राएलियों के डर के मारे उन का मन धरा गया  
 और उन के जी में जी न रहा ॥

- २ उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा चकमक की  
 छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा

(२) मूल में गल ।

दे । सो यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खल- १  
 दिबां नाम टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया । और ४  
 यहोशू ने जो खतना कराया इस का कारण यह है कि  
 जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे सो सब ५  
 मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गये थे । जो  
 पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका  
 था पर जितने उन के मिस्र से निकलने पर जंगल के  
 मार्ग में उत्पन्न हुए उन में से किसी का खतना न हुआ  
 था । इस्राएली तो चालीस बरस लों जंगल में फिरते रहे ६  
 जब लों उस सारी जाति के लोग अर्थात् जितने युद्ध के  
 योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश न हुए क्योंकि  
 उन्होंने ने यहोवा की न मानी थी सो यहोवा ने किरिया  
 खाकर उन से कहा था कि जो देश मैं ने तुम्हारे पितरों  
 से किरिया खाकर तुम्हें देने का कहा था और उस में  
 दूध और मधु की धाराएं बहती हैं वह देश मैं तुम को  
 नहीं दिखाने का । सो उन लोगों के पुत्र जिन का यहोवा ७  
 ने उन के स्थान पर उत्पन्न किया था उन का खतना  
 यहोशू ने कराया क्योंकि मार्ग में उन के खतना न होने  
 के कारण वे खतनारहित थे । और जब उस सारी जाति ८  
 के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने लों  
 अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे । तब यहोवा ने ९  
 यहोशू से कहा तुम्हारी जो नामधराई मिस्रियों में हुई  
 उसे मैं ने आज दूर की है<sup>२</sup> इस कारण उस स्थान का  
 नाम आज के दिन लों गिलगाल<sup>३</sup> पड़ा है ॥

सो इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे और १०  
 उन्होंने ने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी का सांभ १  
 के समय फसह माना । और फसह के दूसरे दिन ठीक ११  
 उसी दिन वे उस देश की उपज में से अखमारी रोटी  
 और भुना हुआ दाना खाने लगे । और जिस दिन वे १२  
 उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन के बिहान  
 का मान बन्द हो गया और इस्राएलियों का आगे फिर  
 कभी मान न मिला सो उस बरस में वे कनान देश का  
 उपज में से खाते थे ॥

(यरीहो का ले लिया जाना)

जब यहोशू यरीहो के पास था तब उस ने जो आख १३  
 उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिये  
 हुए एक पुरुष साम्हने खड़ा है सो यहोशू ने पास  
 जाकर पूछा क्या तू हमारी ओर का है वा हमारे बैरियों  
 की ओर का । उस ने उत्तर दिया कि नहीं मैं यहोवा १४  
 की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ तब यहोशू ने

(१) मूल में छुदका दी है । (२) अर्थात् छुदकना ।

पृथिवी पर मुंह के बल गिरके दण्डवत् कर उस से कहा  
 १५ अपने दास के लिये मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है । यहोवा  
 की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा अपनी जूती पांव  
 से उतार डाल क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है सो  
 पवित्र है तब यहोशू ने वैसा ही किया ॥

६. यरीहो के सब फाटक इस्त्राएलियों के डर के  
 २ मारे लगातार बन्द रहे और कोई बाहर  
 ३ भीतर जाने आने न पाता था । फिर यहोवा ने यहोशू  
 से कहा सुन मैं यरीहो को उस के राजा और शूरवीरों  
 ४ समेत तेरे बश में कर देता हूँ । सो तुम में जितने  
 ५ योद्धा हैं वे उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आएँ  
 ६ और छः दिन तक ऐसा ही किया करना । और सात  
 ७ याजक संदूक के आगे आगे जुबली के सात नरसिंगे लिये  
 हुए चले । फिर सातवें दिन तुम नगर के चारों ओर  
 ८ सात बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले ।  
 ९ और जब वे जुबली के नरसिंगे देर लीं फूंकते रहे तब सब  
 १० लांग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जयजय-  
 कार करें तब नगर की शहरपनाह नेब से गिर जाएगी  
 ११ और सब लोग अपने अपने साम्हने चढ़ जाएँ । सो नून  
 के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा वाचा के  
 १२ संदूक को उठा लो और सात याजक यहोवा के संदूक के  
 १३ आगे आगे जुबली के सात नरसिंगे लिये चले । फिर  
 १४ उस ने लोगों से कहा आगे बढ़ कर नगर के चारों ओर  
 १५ घूम आओ और हथियारबन्ध पुरुष यहोवा के संदूक के  
 १६ आगे आगे चले । ज्यों यहोशू ये बातें लोगों से कह  
 १७ चुका त्यों ही वे सात याजक जो यहोवा के साम्हने सात  
 १८ नरसिंगे लिये हुए थे वे नरसिंगे फूंकते हुए चले और  
 १९ यहोवा की वाचा का संदूक उन के पीछे पीछे चला ।  
 २० और नरसिंगे फूंकनेहारे याजकों के आगे आगे वे  
 २१ हथियारबन्ध पुरुष चले और पीछेवाले संदूक के पीछे पीछे  
 २२ चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले । और यहोशू ने  
 २३ लोगों को आज्ञा दी कि जब लो मैं तुम्हें जयजयकार  
 करने की आज्ञा न दू तब लो जयजयकार न करो और  
 २४ न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आएँ न कोई बात तुम्हारे  
 २५ मुंह से निकलने पाएँ आज्ञा पाते ही जयजयकार करना ।  
 २६ सो यहोवा का संदूक एक बार नगर के चारों ओर घूम  
 आया तब वे छावनी में आकर वहीं टिके ॥  
 २७ बिहान को यहोशू सबेरे उठा और याजकों ने  
 २८ यहोवा का संदूक उठा लिया । और वे ही सात याजक  
 २९ जुबली के सात नरसिंगे लिये यहोवा के संदूक के आगे  
 ३० आगे फूंकते हुए चले और उन के आगे हथियारबन्ध  
 पुरुष चले और पीछेवाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे

चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गये । सो वे दूसरे १४  
 दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूम कर छावनी  
 में लौट आये और ऐसा ही उन्होंने छः दिन किया ।  
 फिर सातवें दिन वे भीर की बड़े तड़के उठकर उसी रीति १५  
 से नगर के चारों ओर सात बार घूम आये केवल उसी  
 दिन वे सात बार घूमे । तब सातवीं बार जब याजक १६  
 नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा जयजयकार  
 करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है । और १७  
 नगर और जो कुछ उस में है यहोवा के लिये अर्पण की  
 वस्तु ठहरगा केवल राहाब बेश्या और जितने उस के  
 घर में हों वे जीते रहेंगे क्योंकि उस ने हमारे भेजे हुए  
 दूतों को छिगा रक्खा था । और तुम अर्पण की वस्तुओं १८  
 से बड़ी सावधानी करके अलग रहो ऐसा न हो कि अर्पण  
 की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ  
 ले लो और इस भान्ति इस्त्राएली छावनी को भी अर्पण  
 की वस्तु बनाकर उसे कष्ट में डालो । सब चान्दी सोना १९  
 और जो पात्र पीतल और लौहे के हैं सो यहोवा के लिये  
 पवित्र ठहर के उसी के भण्डार में रखे जाएँ । तब २०  
 लोगों ने जयजयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते  
 रहे और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुनकर फिर बड़ी  
 ही ध्वनि से जयजयकार किया तब शहरपनाह नेब से  
 गिर पड़ी और लोग अपने अपने साम्हने से उस नगर  
 में चढ़ गये और नगर को ले लिया और क्या पुरुष २१  
 क्या स्त्री क्या जवान क्या बूढ़े बरन बेल भेड़ बकरी गदहे  
 जितने नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु  
 जान कर तलवार से मार डाला । तब यहोशू ने उन २२  
 दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गये थे कहा  
 अपनी किरिया के अनुसार उस बेश्या के घर में जाकर  
 उस को और जो उस के पास हों उन्हें भी निकाल ले  
 आओ । सो वे जवान भेदिये भीतर जाकर राहाब को २३  
 और उस के माता पिता भाइयों और सब को जो उस के  
 यहाँ रहते थे बरन उस के सब कुटुम्बियों को निकाल  
 लाये और इस्त्राएल की छावनी से बाहर बैध दिया ।  
 तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उस में था सब को २४  
 आग लगाकर फूंक दिया केवल चान्दी सोना और जो  
 पात्र पीतल और लौहे के थे उन को उन्होंने यहोवा के  
 भवन के भण्डार में रख दिया । और यहोशू ने राहाब २५  
 बेश्या और उस के पिता के घराने को बरन उस के सब  
 लोगों को जीते छोड़ दिया और आज लो उस का बंश  
 इस्त्राएलियों के बीच में रहता है क्योंकि जो दूत यहोशू  
 ने यरीहो के भेद लेने को भेजे थे उन को उस ने छिपा  
 रक्खा था । फिर उसी समय यहोशू ने इस्त्राएलियों को यह २६

किरिया घराई कि जो मनुष्य उठ कर यह नगर यरीहो बसा दे वह यहीवा की और से स्थापित ही जब वह उस की नेव डालेगा तब तो उस का जेठ बेटा मरेगा और जब वह उस के फाटक खड़े करेगा तब इस का लहुरा मर जाएगा<sup>१</sup> । सो यहीवा यहीशू के संग रहा और यहीशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई ॥

(आकान का पाप)

### ७. पर इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के

विषय विश्वासघात किया अर्थात् यहूदा गोत्र का आकान जो जेरहवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था उस ने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया इस से यहीवा का कोप इस्राएलियों पर बढ़क उठा ॥

- १ और यहीशू ने यरीहो से ऐ नाम नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बैतल की पूरब और है कितने पुरुषों को यह कह कर भेजा कि जाकर देश का मैद ले आओ सो उन पुरुषों ने जाकर ऐ का मैद लिया ।
- २ और उन्होंने ने यहीशू के पास लौटकर कहा सब लोग वहाँ न जाएं कोई दौ वा तीन हजार पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते हैं सब लोगों की वहाँ जाने का कष्ट न
- ४ दे क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं । सो कोई तीन हजार पुरुष वहाँ गये पर ऐ के रहनेहारों के साम्हने से भाग
- ५ आये । तब ऐ के रहनेहारों ने उन में से कोई छत्तीस पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम लौं उन का पीछा करके उतराई में उन को मारते गये सो लोगों का मन धरकर जल सा बन गया । और यहीशू ने
- ६ अपने बख फाड़े और वह और इस्राएली पुरनिये यहीवा के संदूक के साम्हने मुंह के बल गिर के पृथिवी पर संभल लो पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल
- ७ डाली । और यहीशू ने कहा हाय प्रभु यहीवा तू अपनी इस प्रजा के यर्दन पार क्यों ले आया है जिस से हमें एमोरियों के वश में कराके नाश करे भला होता कि हम
- ८ संताप करके यर्दन के उस पार रह जाते । हाय प्रभु मैं क्या कहूँ जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ
- ९ दिखाई है । क्योंकि कनानी बरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हम को धर लेंगे और हमारा नाम पृथिवी पर से मिटा डालेंगे फिर तू अपने बड़े नाम के लिये क्या
- १० करेगा । यहीवा ने यहीशू से कहा उठ जा तू क्यों इस
- ११ भान्ति मुंह के बल पृथिवी पर पड़ा है । इस्राएलियों ने

(१) मूल में वह अपने जेठ के बदले में उस की नेव डालेगा और अपने लहुरे के बदले में उस के फाटक खड़े करेगा ।

(२) मूल में गलकर ।

पाप किया है और जो वाचा मैं ने उन से अपने साथ बन्वाई थी उस को उन्होंने तोड़ दिया है उन्होंने ने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया बरन चोरी भी की और कुछ करके उस को अपने सामान में रख लिया है । इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के साम्हने खड़े नहीं रह सकते वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं इसलिये कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गये हैं और यदि तुम अपने बीच में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालो तो मैं आगे का तुम्हारे संग न रहूँगा । उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर उन से कह कि बिहान लो अपने अपने को पवित्र कर रखो क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहीवा यो कहता है कि हे इस्राएल तैरे बीच अर्पण की कोई वस्तु है सो जब लो अर्पण की वस्तु को अपने बीच में से दूर न करे तब लो तू अपने शत्रुओं के साम्हने खड़ा न रह सकेगा । सो बिहान को तुम गोत्र करके समीप खड़े किये जाओगे और जिस गोत्र के नाम पर चिट्टी निकले सो कुल कुल करके पास किया जाएगा और जिस कुल के नाम पर चिट्टी निकले सो घराना घराना करके पास किया जाएगा फिर जिस घराने के नाम पर चिट्टी निकले सो एक एक पुरुष करके पास किया जाएगा । तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा सो उस समेत जो उस का हो आगे में डालकर जलाया जाएगा क्योंकि उस ने यहीवा की वाचा को तोड़ा और इस्राएल में मूढता की है ॥

बिहान को यहीशू सवैरे उठ इस्राएलियों को गोत्र करके समीप लिवा ले गया और चिट्टी यहूदा के गोत्र के नाम पर निकली<sup>६</sup> । तब उस ने यहूदा के कुल कुल समीप किये और चिट्टी जेरहवंशियों के कुल के नाम पर निकली<sup>७</sup> फिर जेरहवंशियों का कुल पुरुष पुरुष करके समीप किया और चिट्टी जब्दी के नाम पर निकली<sup>८</sup> । तब उस ने उस का घराना पुरुष पुरुष करके समीप किया और यहूदा गोत्र का आकान जो जेरहवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था उसी के नाम पर चिट्टी निकली<sup>९</sup> । तब यहीशू आकान से कहने लगा हे मैरे बेटे इस्राएल के परमेश्वर यहीवा का मान करके उस के आगे अंगीकार कर और जो कुछ तूने किया

(३) मूल में जो गोत्र यहीवा पकड़ेगा ।

(४) मूल में जो कुछ यहीवा पकड़ेगा । (५) मूल में जो घराना यहीवा पकड़ेगा ।

(६) मूल में यहूदा का गोत्र पकड़ा गया ।

(७) मूल में जेरहवंशियों का कुल पकड़ा गया । (८) मूल में जब्दी पकड़ा गया ।

(९) मूल में वह पकड़ा गया ।

हो तो मुझ को बता और मुझ से कुछ न छिपा ।  
 २० आकाश ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने  
 इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है  
 २१ और यों यों किया है । जब मुझे लूट में शिनार देश का  
 एक सुन्दर ओढ़ना दो सौ शेकेल चान्दी और पचास  
 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी तब मैंने उन का  
 लालच करके उन्हें रख लिया वे मेरे डेरे के बीच भूमि में  
 २२ गड़े हैं और सब के नीचे चान्दी है । सो यहोशू ने दूत  
 भेजे और वे उस डेरे को दौड़े गये और क्या देखा कि वे  
 वस्तुएं उस के डेरे में गड़ी हैं और सब के नीचे चान्दी  
 २३ है । उन को उन्होंने ने डेरे के बीच से निकालकर यहोशू  
 और सब इस्राएलियों के पास ले आकर यहोवा के साम्हने  
 २४ धर दिया । तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरहर्दशी  
 आकाश को और उस चान्दी और ओढ़ने और सोने की  
 ईंट को और उस के बेटे बेटियों को और उस के बैलों  
 गदहों और भेड़ बकरियों को और उस के डेरे का निदान  
 जो कुछ उस का था उस सब को आकार नाम तराई में  
 २५ ले गया । तब यहोशू ने उस से कहा तू ने हमें क्यों कष्ट  
 दिया है आज के दिन यहोवा तुम्हीं को कष्ट देगा इस पर  
 सब इस्राएलियों ने उस पर पत्थरबाद किया और उन को  
 आग में डालकर जलाया और उन के ऊपर पत्थर डाल  
 २६ दिये । और उन्होंने ने उस के ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर  
 लगा दिया जो आज लों बना है तब यहोवा का भड़का  
 हुआ क्रोध शान्त हो गया । इस कारण उस स्थान का  
 नाम आज लों आकार<sup>१</sup> तराई पड़ा है ॥

(ये नगर का ले लिया जाना)

**८. तब** यहोवा ने यहोशू से कहा मत डर  
 और तेरा मन कच्चा न हो कमर  
 बान्धकर सब योद्धाओं को साथ ले ऐ पर चढ़ाई कर  
 क्योंकि मैंने ऐ के राजा को प्रजा नगर और देश समेत  
 २ तेरे बश में कर दिया है । और जैसा तू ने यरीहो और  
 उस के राजा से किया वैसा ही ऐ और उस के राजा से  
 भी करना केवल तुम पशुओं समेत उस की लूट तो अपने  
 लिये ले सकेगे उस नगर के पीछे की और से घात  
 ३ लगा । सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ऐ पर चढ़ाई  
 करने की तैयारी की और यहोशू ने तीस हजार पुरुषों को  
 जो बड़े बड़े वीर थे चुनकर रात को आशा देकर भेजा  
 ४ कि, सुनो तुम उस नगर के पीछे की और घात लगाये बैठे  
 रहना नगर से बहुत दूर न जाना और सब के सब तैयार  
 ५ रहना । और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के  
 निकट जाऊंगा और जब वे पहिले की नाई हमारा

(१) अर्थात् कष्ट देना ।

साम्हना करने को निकलें तब हम उन के आगे से  
 भागेंगे । तब वे यह सोचकर कि वे पहिले की भांति  
 हमारे साम्हने से भागे जाते हैं हमारा पीछा करेंगे तो  
 हम उन के साम्हने से भागकर उन्हें नगर से दूर खींच ले  
 आएंगे । तब तुम घात से उठकर नगर की अग्ना कर  
 ७ लेना देखो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उस को तुम्हारे हाथ  
 में कर देगा । और जब नगर का ले लो तब उस में आग  
 ८ लगाकर फुंक देना यहोवा की आज्ञा के अनुसार करना  
 सुनो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है । तब यहोशू ने उन को  
 ९ भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गये और बेटेज  
 और ऐ के बीच ऐ की पच्छिम और बैठे रहे पर यहोशू  
 उस रात लोगों के बीच टिका रहा ॥

विधान को यहोशू सबेरे उठ लोगों की गिनती १०  
 लेकर इस्राएली पुरनियों समेत लोगों के आगे आगे ऐ  
 की और चला । और उस के संग के सब योद्धा चढ़ गये ११  
 और ऐ नगर के निकट पहुँचकर उस के साम्हने उत्तर  
 और डेरे डाले और उन के और ऐ के बीच एक तराई थी ।  
 तब उस ने कोई पांच हजार पुरुष चुनकर बेतेल और ऐ के १२  
 बीच नगर की पच्छिम और घात लगाने का ठहरा दिया ।  
 और ज ३ लोगों ने नगर की उत्तर और की सारी सेना को १३  
 और उस की पच्छिम और घात में बैठे हुआ को भी ठहरा  
 दिया तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया । जब ऐ १४  
 के राजा ने यह देखा तब वे फुर्ती करके सबेरे उठे और  
 राजा अपनी सारी प्रजा को ले इस्राएलियों के साम्हने  
 उन से लड़ने को निकलकर ठहराये हुए स्थान पर जो  
 अराबा के साम्हने है पहुँचा और वह न जानता था कि  
 नगर की पिछली और लोग घात लगाये बैठे हैं । तब १५  
 यहोशू और सब इस्राएली उन से हार सी मान कर  
 जंगल का मार्ग ले भाग चले । तब नगर में के सब लोग १६  
 इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाये  
 गये तो वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर खींचे  
 गये । और न ऐ में न बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो १७  
 इस्राएलियों का पीछा करने को न गया हो और उन्होंने ने  
 नगर को खुला हुआ छोड़कर इस्राएलियों का पीछा  
 किया । तब यहोवा ने यहोशू से कहा अपने हाथ का बर्झा १८  
 ऐ की और बढ़ा क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा तो  
 यहोशू ने अपने हाथ के बर्झे को नगर की ओर बढ़ाया ।  
 उस के हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे सो भट १९  
 अपने स्थान से उठे और दौड़ दौड़ नगर में धुस कर उस  
 को ले लिया और भट उस में आग लगा दी । जब ऐ २०  
 के पुरुषों ने पीछे की ओर दृष्टि की तो क्या देखा कि  
 नगर का धूआ आकाश की ओर उठ रहा और उन्हें न

तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे सो फिरके अपने खदेड़नेहारों पर टूट पड़े । जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि बातियों ने नगर को ले लिया और उस का धंआ उठ रहा है तब घूमकर ऐ के पुरुषों को मारने लगे । और उन का साम्हना करने को दूसरे भी नगर से निकल आये सो वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गये कुछ इस्राएली तो उन के आगे और कुछ उन के पीछे थे सो उन्होंने ने उन को यहां तक मार डाला कि उन में से न तो कोई बचने और न भागने पाया । और ऐ के राजा को वे जीता पकड़कर यहोशू के पास ले आये । और जब इस्राएली ऐ के सब निवासियों को मैदान में अर्थात् उस जंगल में जहां उन्होंने ने उन का पीछा किया था घात कर चुके और वे सब तलवार से मारे गये यहां लों कि उन का अन्त ही हो गया तब सब इस्राएलियों ने ऐ को लौट कर उसे तलवार से मारा । और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे पड़े सो बारह हजार थे और ऐ के सब पुरुष इतने ही थे । क्योंकि जब लों यहोशू ने ऐ के सब निवासियों को सत्यानाश न कर डाला तब लों उस ने अपना हाथ जिस से बड़ा बढ़ाया था फिर न खींचा । केवल यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उस ने यहोशू को दी थी इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली । तब यहोशू ने ऐ को फंका दिया और उसे सदा के लिये डीह कर दिया सो वह आज लों उजाड़ पड़ा है । और ऐ के राजा को उस ने साभू तलक वृक्ष पर लटका रक्खा और सूर्य इबते इबते यहोशू की आज्ञा से उस की लोथ वृक्ष पर से उतार के नगर के फाटक के साम्हने डाल दी गई और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया गया जो आज लों बना है ॥

(आशीर्वाद और साप का सुनाया जाना)

३० तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई । जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है ३३ ने समूचें पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर लोखर चलाया न गया था । और उस पर उन्होंने ने यहोवा के लिये होमबलि चढाये और मेलबलि किये । उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के साम्हने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उस ने लिखी थी उस की नकल कराई । और क्या देशी क्या परदेशी सारे इस्राएली अपने पुरनियों सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की बाचा का सन्दूक उअनेहारे लेबीय याजकों के साम्हने

उस सन्दूक के इधर उधर खड़े हुए अर्थात् आधे लोम तो गिरिज्जीम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के साम्हने खड़े हुए जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहिले से आज्ञा दी थी कि इस्राएली प्रजा को आशीर्वाद दिये जाएं । उस के पीछे उस ने क्या आशिष के क्या साप के व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुनवा दिये । जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उन में से कोई ऐसी बात न रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियों और बालबच्चों और उन के बीच रहते हुए परदेशी लोगों के साम्हने भी पढ़कर न सुनवाई हो ॥

(गिबोनियों का झल)

## ६. यह सुनकर हिती एमोरी कनानी परिज्जी

हिब्वी और यबूसी जितने राजा यर्दन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के साम्हने के महासागर के तीर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने का इकट्ठे हुए ॥

जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐ से क्या क्या किया है, तब उन्होंने ने झल किया और राजदूतों का भेज बनाकर अपने गदहों पर पुराने और पुराने फटे जोड़े हुए मदिरा के कुप्पे लादकर, अपने पांवों में पुरानी गांठी हुई जूतियां और तन में पुराने वस्त्र पहिने अपने भोजन के लिये सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली । सो वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उस से और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे हम दूर देश से आये हैं सो अब हम से बाचा बांधो । इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्वियों से कहा क्या जाने तुम हमारे बीच बसे हो फिर हम तुम से बाचा कैसे बांधें । उन्होंने ने यहोशू से कहा हम तेरे दास हैं यहोशू ने उन से कहा तुम कौन हो और कहा से आते हो । उन्होंने ने उस से कहा तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आये हैं क्योंकि हम ने यह सब सुना है अर्थात् उस की कीर्ति और जो कुछ उस ने मिस्र में किया, और जो कुछ उस ने एमोर्गियों के दानों राजाओं से किया जो यर्दन के उस पार रहते थे अर्थात् हेश्बोन के राजा सीहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अशतारोत में था । सो हमारे यहां के पुरनियों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हम से कहा कि मार्ग के लिये अपने साथ भोजनवस्तु लेकर उन से मिलने को जाओ और

(१) मूल में चलते हुए ।

उन से कहना कि हम तुम्हारे दास हैं सो अब हम से  
 १२ वाचा बाँधें। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को  
 निकले उस दिन तो हम ने अपने अपने घर से यह रोटी  
 टटकी लिई थी पर अब देखो यह सूख गई और इस में  
 १३ फफुंदा लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हम ने  
 भर लिये सो तब तो नये ये पर देखो अब ये फटे हुए हैं  
 और हमारे ये बन्ध और जूतियां बड़ी दूर की यात्रा के  
 १४ कारण पुरानी हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से  
 बिना सलाह लिये उन के भोजन में से कुछ ग्रहण  
 १५ किया। सो यहोशू ने उन से मेल करके उन से यह  
 वाचा बान्धी कि तम को जीते छोड़ेंगे और मण्डली के  
 १६ प्रधानों ने उन से किरिया भी खाई। उन के साथ वाचा  
 बान्धने के तीन दिन पीछे उन को यह समाचार मिला  
 कि वे हमारे पड़ोस के लोग हैं और हमारे बीच धसे हैं।  
 १७ सो इस्राएली कूच करके तीसरे दिन उन के नगरों को  
 १८ जिन के नाम गिबोन कर्षीरा बेरोत और किर्यत्यारीम्  
 हैं पहुंच गये। और इस्राएलियों ने उन को न मारा  
 क्योंकि मण्डली के प्रधानों ने उन के संग इस्राएल के  
 १९ परमेश्वर यहोवा की किरिया खाई थी सो सारी मण्डली  
 के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब  
 प्रधानों ने सारी मण्डली से कहा हम ने उन से इस्राएल  
 के परमेश्वर यहोवा की किरिया खाई है सो अब उन को  
 २० छू नहीं सकते। हम उन से यह करेंगे कि उस किरिया  
 के अनुसार हम उन को जाते छोड़ देंगे नहीं तो हमारी  
 २१ खाई हुई किरिया के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर  
 प्रधानों ने उन से कहा वे जीते छोड़े जाएं। सो प्रधानों  
 के इस बन्दन के अनुसार वे सारी मण्डली के लिये  
 २२ लकड़हारे और पनिहारे हो गये। फिर यहोशू ने उन को  
 बुलवाकर कहा तुम तो हमारे बीच रहनेहारे हो फिर  
 तुम ने हम से यह कहकर क्यों छल किया है कि हम  
 २३ तुम से बहुत दूर रहते हैं। सो अब तुम स्थापित हो और  
 तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात् मेरे  
 २४ परमेश्वर के भवन के लिये लकड़हारा और पनिहारा न  
 हो। उन्होंने यहोशू से कहा तेरे दासों को यह निश्चय  
 बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने  
 दास मूसा को आज्ञा दिई थी कि तुम को वह सारा देश  
 दे और उस के सारे निवासियों को तुम्हारे साम्हाने से  
 नाश करे सो हम ने तुम लोगों के कारण अपने जीवन  
 २५ के बड़े डर में आकर ऐसा काम किया। और अब हम  
 तेरे वश में हैं जैसा बर्ताव तुम्हें भला और ठीक जान  
 २६ पड़े वैसा ही हम से कर। सो उस ने उन से वैसा ही  
 किया और उन्हें इस्राएलियों के हाथ से ऐसा बचाया

कि वे उन्हें घात करने न पाये, पर यहोशू ने उसी दिन २७  
 उन को मण्डली के लिये और जो स्थान यहोवा चुन ले  
 उस में उस की वेदी के लिये लकड़हारे और पनिहारे  
 करके ठहरा दिया। सो आज लों वे बैसे ही रहते हैं ॥

(कनान के दक्खिनी भाग का जीता जाना)

१०. जब यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक

ने सुना कि यहोशू ने ऐ को ले  
 लिया और उस को सत्यानाश कर डाला है और जैसा  
 उस ने यरीहो और उस के राजा से किया था वैसा ही  
 ऐ और उस के राजा से भी किया है और यह भी सुना  
 कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से मेल किया  
 और उन के बीच रहने लगे हैं, तब वे निपट डर गये २  
 क्योंकि गिबोन बड़ा नगर बरन राजनगर के तुल्य था और  
 ऐ से बड़ा है और उस के सब निवासी शूरवीर थे। सो  
 ३ यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक ने हेब्रोन के राजा  
 होहाम यर्मत के राजा पिराम लाकीश के राजा यापो और  
 एग्लोन के राजा दबीर के पास यों कहला भेजा कि, मेरे ४  
 पास आकर मेरी सहायता करो हम गिबोन को मार लें  
 क्योंकि उस ने यहोशू और इस्राएलियों से मेल किया है।  
 सो यरूशलेम हेब्रोन यर्मत लाकीश और एग्लोन के ५  
 पाँचों एमोरी राजा अपनी अपनी सारी सेना लेकर इकट्ठे  
 हो चढ़ गये और गिबोन के साम्हने डेरे डालकर उस से  
 लड़ने लगे। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की ६  
 छावनी में यहोशू के पास यों कहला भेजा कि अपने  
 दासों से तू हाथ न उठा फुर्तों से हमारे पास आकर हमें  
 बचा और हमारी सहायता कर क्योंकि पहाड़ पर बसे ७  
 हुए एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं।  
 सो यहोशू सारे यांदाओं और सब शूरवीरों को संग लेके ८  
 गिलगाल से उधर गया। और यहोवा ने यहोशू से कहा  
 उन से मत डर क्योंकि मैं ने उन को तेरे हाथ में कर  
 दिया है उन में से एक पुरुष भी तेरे साम्हने खड़ा न रह  
 सकेगा। सो यहोशू रतोंगत गिलगाल से जाकर एका- ९  
 एक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे १०  
 इस्राएलियों से घबरा गये और इस्राएलियों ने गिबोन के  
 पास उन्हें बड़ी मार से मारा और बेथोरोन के चढ़ाव पर  
 उन का पीछा करके अजेका और मक्केदा लों उन्हें  
 मारते गये। फिर जब वे इस्राएलियों के साम्हने से भाग- ११  
 कर बेथोरोन की उतराई पर आए तब अजेका पहुंचने  
 लों यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर गिराये  
 और वे मर गये। जो आलों से मारे गये सो इस्राएलियों  
 की तलवार से मारे हुओं से अधिक थे ॥

(१) मूल में चढ़ा।



- १२ उस समय अर्थात् जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के बश में कर दिया उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते यों कहा  
हे सूर्य्य तू गिबोन पर  
और हे चन्द्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर  
ठहरा रहा ॥
- १३ सो सूर्य्य तब लौं थंभा रहा और चंद्रमा तब लौं  
ठहरा रह ?  
जब लौं उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से  
पलटा न लिया  
यह बात याशाार नाम पुस्तक में लिखी हुई है कि सूर्य्य  
आकाशमण्डल के बीच ठहरा रहा और कोई चार पहर के
- १४ लगभग न हुआ । न तो उस से पहिले कोई ऐसा दिन  
हुआ न उस के पीछे जिस में यहोवा ने किसी पुरुष की  
सुनी हो यहोवा तो इस्राएल की ओर लड़ता था ॥
- १५ तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत गिलगाल की  
छावनी को लौट गया ॥
- १६ और वे पांचों राजा भागकर मक्केदा के पास की  
१७ गुफा में छिप गये । तब यहोशू को यह समाचार मिला कि  
पांचों राजा हमें मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए  
१८ मिले हैं । यहोशू ने कहा गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर  
छुड़काकर उन की चौकी देने के लिये मनुष्यों को उस के  
१९ पास बैठा दो । पर तुम मत ठहरो अपने शत्रुओं का पीछा  
करके उन में से पीछेवालों को मार डालो उन्हें अपने  
अपने नगर में पैठने न दो क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर  
२० यहोवा ने उन को तुम्हारे हाथ में कर दिया है । जब  
यहोशू और इस्राएली उन्हें बड़ी मार से मार के नाश कर  
चुके और उन में से जो बच गये सो अपने अपने गढ़-  
२१ वाले नगर में घुस गये, तब सब लोग मक्केदा की छावनी  
को यहोशू के पास कुशलक्षेम से लौट आये और  
इस्राएलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई ? ।
- २२ तब यहोशू ने आज्ञा दी कि गुफा का मुंह खोलकर उन  
२३ पांचों राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ । उन्होंने ने  
ऐसा ही किया और यरूशलेम हेब्रोन यर्मत लाकीश  
और एग्लोन के उन पांचों राजाओं को गुफा में से उस  
२४ के पास निकाल ले आये । जब वे उन राजाओं को  
यहोशू के पास निकाल ले आये तब यहोशू ने इस्राएल  
के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलनेहारे योद्धाओं  
के प्रधानों से कहा निकट आकर अपने अपने पांव इन  
राजाओं की गर्दनों पर धरो सो उन्होंने ने निकट जाकर

(१) मूल में चुप हो गया ।

(२) मूल में सान न चढ़ाई ।

अपने अपने पांव उन की गर्दनों पर धर दिये । तब २५  
यहोशू ने उन से कहा डरो मत और न तुम्हारा मन  
कम्बा हो दियाव बांधकर दृढ़ हो क्योंकि यहोवा तुम्हारे  
सब शत्रुओं से जिन से तुम लड़नेवाले हो ऐसा ही करेगा ।  
इस के पीछे यहोशू ने उन को मरवा डाला और पांच २६  
वृक्षों पर लटकाया और वे सांभ लौं उन वृक्षों पर लटक  
रहे । सूर्य्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने २७  
उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहाँ छिप  
गये थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े  
पत्थर दे दिये वे आज लौं वहीं धरे हुए हैं ॥

उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उस २८  
को तलवार से मारा और उस के राजा को सत्यानाश  
किया और जितने प्राणी उस में थे उन सभी में से किसी  
को जीता न छोड़ा और जैसा उस ने यरीहो के राजा से  
किया था वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया ॥

तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत मक्केदा से २९  
चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा । और ३०  
यहांवा ने उस को भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ  
कर दिया और यहोशू ने उस को और उस में के सब  
प्राणियों को तलवार से मारा और उस में किसी को  
जीता न छोड़ा और उस के राजा से वैसा ही किया  
जैसा उस ने यरीहो के राजा से किया था ॥

फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लिब्ना से ३१  
चलकर लाकीश को गया और उस के विरुद्ध छावनी  
डालकर लड़ा । और यहोवा ने लाकीश को इस्राएल के ३२  
हाथ में कर दिया सो दूसरे दिन उस ने उस को ले लिया  
और जैसा उस ने लिब्ना में के सब प्राणियों को तलवार  
से मारा वैसा ही उस ने लाकीश से भी किया ॥

तब गेजर का राजा हौराम लाकीश की सहायता ३३  
करने को चढ़ आया और यहोशू ने प्रजा समेत उस को  
भी ऐसा मारा कि उस के लिये किसी को जीता न छोड़ा ॥

फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लाकीश से ३४  
चलकर एग्लोन का गया और उस के विरुद्ध छावनी  
डालकर लड़ने लगा । और उसी दिन उन्होंने ने उस को ३५  
ले लिया और उस को तलवार से मारा और उसी दिन  
जैसा उस ने लाकीश में के सब प्राणियों को सत्यानाश  
कर डाला था वैसा ही उस ने एग्लोन से भी किया ॥

फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत एग्लोन से चल- ३६  
कर हेब्रोन को गया और उस से लड़ने लगा । और उन्होंने ३७  
ने उसे ले लिया और उस को और उस के राजा और  
सब गांवों को और उन में के सब प्राणियों को तलवार  
से मारा जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसा ही

उस ने हेब्रोन में भी किसी को जीता न छोड़ा उस ने उस को और उस में के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला ॥

- ३८ तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत घूमकर दबीर को  
 ३९ गया और उस से लड़ने लगा, और राजा समेत उसे और उस के सब गाँवों को ले लिया और उन्होंने उन को तलवार से मार लिया और जितने प्राणी उन में थे सब को सत्यानाश कर डाला, किसी को जीता न छोड़ा जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उस के राजा से किया था वैसा ही उस ने दबीर और उस के राजा से भी किया ।  
 ४० सो यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात् पहाड़ी देश दक्खिन देश नीचे के देश और ढालू देश को उन के सब राजाओं समेत मारा और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीता न छोड़ा बरन  
 ४१ जितने प्राणी थे सबों को सत्यानाश कर डाला । सो यहोशू ने कादेशबर्ने से ले अजा लौ और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा । इन सब राजाओं को उन के देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की और से लड़ता था । तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया ॥  
 (कनान के उत्तरीय भाग का जीता जाना)

## ११. यह सुनकर हासोर के राजा यावीन ने

- मादोन के राजा योबाब और  
 १ शिमोन और अन्नाप के राजाओं को, और जो जो राजा उत्तर की और पहाड़ी देश में और किर्जैत की दक्खिन के अराबा में और नीचे के देश में और पच्छिम और दूर  
 २ के ऊँचे देश में रहते थे । उन को और पूरब पच्छिम दानों और रहनेहारे कनानियों और एमोरियों हित्तियों परिजियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेमोन  
 ४ पहाड़ के नीचे रहनेहारे हिव्वियों को बुलवा भेजा । और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के तीर की बालू के किनारों के समान बहुत थी निकल आये और उन के  
 ५ साथ बहुत ही घोड़े और रथ भी थे, तब ये सब राजा संमति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से लड़ने को मेरोम नाम ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली ।  
 ६ सो यहोवा ने यहोशू से कहा उन से मत डर क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश करके मरवा डालूँगा तब तु उन के घोड़ों के सुम की  
 ७ नस कटवाना और उन के रथ भस्म कर देना । सो यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नाम ताल के पास  
 ८ अचानक पहुँचकर उन पर टूट पड़ा । और यहोवा ने

उन को इस्राएलियों के हाथ कर दिया सो उन्होंने उनमें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्पोतमैम लौ और पूरब और मिस्पा के मैदान लौ उन का पीछा किया और उन को मारा और उन में से किसी को जीता न छोड़ा । तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन से किया अर्थात् उन के घोड़ों के सुम की नस कटवाई और उन के रथ भस्म कर दिये ॥

उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को जो पहिले १० उन सब राज्यों में मुख्य नगर था ले लिया और उस के राजा को तलवार से मार डाला । और जितने प्राणी ११ उस में थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर सत्यानाश किया और किसी प्राणी को जीता न छोड़ा और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फुंकवा दिया । और उन सारे नगरों को उन के सब राजाओं समेत १२ यहोशू ने ले लिया और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उन को तलवार से मारकर सत्यानाश किया । पर हासोर को छोड़कर जिसे यहोशू ने फुंकवा दिया १३ इस्राएल ने और किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा था न फुंका । और इन नगरों के पशु और इन की १४ सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना लिया पर मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला यहाँ लौ कि उन को सत्यानाश कर डाला और एक भी प्राणी को जीता न छोड़ा । जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी १५ थी उस के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी और वैसा ही यहोशू ने किया भी जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन में से यहोशू ने कोई भी पूरी किये बिना न छोड़ी ॥

(समस्त कनान का राजाओं समेत जीता जाना)

सो यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात् पहाड़ी देश और १६ सारे दक्खिन देश और सारे गोशेन देश और नीचे के देश अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उस के नीचे-वाले देश को, हालाक नाम पहाड़ से लै जो सेईर की १७ चढाई पर है बालगाद लौ जो लबानोन के मैदान में हेमोन पर्वत के नीचे है जितना देश है उस सब को ले लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला । उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को १८ बहुत दिन लगे । गिबोन के निवासी हिव्वियों को छोड़ १९ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़कर ले लिया । क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा २० के अनुसार जो उस ने मूसा को दी थी उन पर कुछ दया न करे बरन सत्यानाश कर डाले इस कारण उस ने

उन के मन ऐसे हठीले कर दिये कि उन्होंने ने इस्राएलियों का साम्हना करके उन से युद्ध किया ॥

- २१ उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन दबीर अनाब वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहनेहारे अनाकियों को नाश किया यहोशू २२ ने नगरों समेत उन्हें सत्मानाश कर डाला । इस्राएलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया थेबल अजा गत और २३ अशदोद में कोई कोई रह गये । सो जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके उन्हें दे दिया । और देश को लड़ाई से शान्ति मिली ॥

### १२. यर्दन पार सुयोदय की ओर अर्थात्

अर्नोन नाले से ले हेर्मोन पर्वत

- लों के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इस्राएलियों ने मारके देश को अपने अधिकार में कर २ लिया था वे हैं, एमोरियों का हेशबोनवासी राजा सीहोन जो अर्नोन नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर यम्बोक नदी लों ३ जो अमोनियों का सिवाना है आधे गिलाद पर, और किर्जैत नाम ताल से ले बेत्यशीमेत से होकर अराबा के ताल लों जो खारा ताल भी कहावता है पूरब और के अराबा और दक्खिन और पिसगा की सलामी के नीचे ४ नीचे के देश पर प्रभुता रखता था । फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश था जो ५ अशतारोत और ऐद्रई में रहा करता था, और हेर्मोन पर्वत सलका और गशूरियों और माकियों के सिवाने लों सारे बाशान में और हेशबोन के राजा सीहोन के सिवाने ६ लों आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था । इस्राएलियों और यहोवा के दास मूसा ने इन को मार लिया और यहोवा के दास मूसा ने इन का देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया ॥ ७ और यर्दन की पश्चिम ओर लवानोन के मैदान में के बालगात से ले सेईर की चढ़ाई में के हालाक पहाड़ लों के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इस्राएलियों ने मारके उन का देश इस्राएलियों को गोत्रों और कुलों ८ के अनुसार भाग करके दे दिया सो वे हैं, हिस्ती और एमोरी और कनानी और परिजी और हिब्वी और यबूसी जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और टालू देश में और जंगल में और दक्खिन देश में ९ रहते थे । एक यरीहो का राजा एक बैतेल के पास के ऐ १० का राजा, एक यरूशलेम का राजा एक हेब्रोन का ११, १२ राजा, एक यर्मूत का राजा एक लाफीश का राजा एक

एग्लोन का राजा एक गेजेर का राजा, एक दबीर का १३ राजा एक गेदेर का राजा, एक होर्मा का राजा एक १४ अराद का राजा, एक लिब्ना का राजा एक १५ अदुल्लाम का राजा, एक मक्केदा का राजा एक बैतेल १६ का राजा, एक तप्पूह का राजा एक हेपेर का राजा, १७ एक अपेक का राजा एक लश्शारेन का राजा, एक १८, १९ मादोन का राजा एक हासोर का राजा, एक शिमोन्यरेन २० का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाक का राजा, २१ एक मगिहो का राजा, एक कैदेश का राजा एक कर्मेल २२ में के योकनाम का राजा, एक दोर नाम ऊंचे देश में २३ के दोर का राजा एक गिलगाल में के गोयीम का राजा, एक तिसा का राजा है सो सब राजा इकतीस हुए ॥ २४

(कनान का इस्राएली गोत्र गोत्र में बांटा जाना)

### १३. यहोशू बूढ़ा और बहुत दिनी हो गया और यहोवा ने उस से कहा तू

बूढ़ा और बहुत दिनी हो गया है और बहुत देश रह गये हैं जो इस्राएल के अधिकार में नहीं आये । ये देश रह २ गये अर्थात् अलिशतियों का सारा प्रान्त और सारे गशूरी । मिस्र के आगे की शीहोर से ले उत्तर और एकोन के ३ सिवाने लों जो कनानियों का भाग गिना जाता है और पलिशतियों के पांचों सरदार अर्थात् अजा अशदोद अशकलोन गत और एकोन के लोग और दक्खिन और अब्बी मी, फिर अपेक और एमोरियों के सिवाने ४ लों कनानियों का सारा देश और सीदनियों का मारा नाम देश, फिर गवालियों का देश और सुयोदय की ५ ओर हेर्मोन पर्वत के नीचे के बालगाद से ले हमाल की चाटी लों सारा लवानोन, फिर लवानोन से ले भिस्सोतमेम तक सीदनियों के पहाड़ी देश के निवासी इन को मैं इस्राएलियों के साम्हने से निकाल दूंगा इतना हो कि ६ तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्टी डाल डाल उन का देश इस्राएल का भाग कर दे । सो अब इस देश को नवों ७ गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्र को उन का भाग होने के लिये बांट दे ॥

इस के साथ रूबेनियों और गादियों को तो वह ८ भाग मिल चुका था जो मूसा ने उन्हें यर्दन की पूरब ओर ऐसा दिया था जैसा यहोवा के दास मूसा ने उन्हें दिया था, अर्थात् अर्नोन नाम नाले के किनारे के ९ अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर दीवान लों मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और अमोनियों के सिवाने लों हेशबोन में विराजनेहारे १० एमोरियों के राजा सीहोन के सारे नगर, और गिलाद ११

- देश और गश्ूरियों और माकाबासियों का सिवाना और  
 १२ सारा हेमोन पर्वत और सल्का लो सारा बाशान, फिर  
 आशतारोत और एद्रेई में बिराजनेहारे उस भोग का  
 सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था  
 १३ इन्हीं का मूसा ने मार लिया और उन की प्रजा को उस  
 देश से निकाल दिया था । पर इस्राएलियों ने गश्ूरियों  
 और माकियों को उन के देश से न निकाला सो गश्ूरी  
 और माकी इस्राएलियों के बीच आज लो रहते हैं ।  
 १४ और लेवी के गोत्रियों को उस ने कोई भाग न दिया  
 क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के कहे के अनुसार  
 उसी के हव्य उन के भाग ठहरा हैं ॥
- १५ मूसा ने रुबेन के गोत्र को उन के कुलों के अनुसार  
 १६ दिया, अर्थात् अनोन नाम नाले के किनारे के अरोएर  
 से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर  
 १७ मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का  
 हेशबोन और उस के सब गांव फिर दीबोन बामोतबाल  
 १८, १९ बेतशल्मोन, यहसा कदेमोत मेपात, किर्यातैम सिबमा  
 २० और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेयशहर, बेतपोर  
 २१ पिसगा की सलामी औ बेत्यशीमोत, निदान चौरस देश  
 में बसे हुए हेशबोन में बिराजनेहारे एमोरियों के उस  
 राजा सीहोन के राज्य के सारे नगर जिसे मूसा ने मार  
 लिया था । मूसा ने एवी रेकेम सूर हूर और रेवा नाम  
 मिद्यान के प्रधानों को भी मार लिया जो सीहोन के  
 ठहराये हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे ।  
 २२ और इस्राएलियों ने उन के और मारे हुआओं के साथ  
 बोर के पुत्र भावी कहनेहारे विलाम को भी तलवार से  
 २३ मार डाला । और रुबेनियों का सिवाना यर्दन का तीर  
 ठहरा । रुबेनियों का भाग उन के कुलों के अनुसार  
 नगरों और गांवों समेत यही ठहरा ॥
- २४ फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के  
 २५ अनुसार भाग दिया । सो यह ठहरा अर्थात् याजेर आदि  
 गिलाद के सारे नगर और रब्बा के साभने के अरोएर  
 २६ लो अम्मोनियों का आधा देश, और हेशबोन से  
 रामतमिस्के और बतानीम लो और महनैम से दबीर के  
 २७ सिवाने लो, और तराई में बेथारम बेत्रिप्पा सुक्कोत  
 और सापोन और हेशबोन के राजा सीहोन के राज्य के  
 बाकी भाग और किर्जेत नाम ताल के सिरे लो यर्दन  
 की पूरब ओर का वह देश जिस का सिवाना यर्दन है ।  
 २८ गादियों का भाग उन के कुलों के अनुसार नगरों और  
 गांवों समेत यही ठहरा ॥
- २९ फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी  
 भाग दिया वह मनश्शेइयों के आधे गोत्र का भाग उन के

कुलों के अनुसार ठहरा । सो यह है अर्थात् महनैम से ३०  
 लो बाशान के राजा भोग के राज्य का सारा देश और  
 बाशान में बसी हुई याईर की साडों बस्तियां, और ३१  
 गिलाद का आधा भाग और अशतारोत और एद्रेई जो  
 बाशान में भोग के राज्य के नगर थे ये मनश्शे के पुत्र  
 माकीर के वंश के अर्थात् माकीर के आधे वंश का  
 भाग कुलों के अनुसार ठहरा ।

जो भाग मूसा ने मोआब के अरावा में यरीहो के ३२  
 पास के यर्दन की पूरब ओर बांट दिये सो ये ही हैं ।  
 पर लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया ३३  
 इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने कहे के अनुसार  
 उन का भाग ठहरा ॥

## १४. जो जो भाग इस्राएलियों ने कनान देश में

पाए जिन्हें एलाजार याजक और नून  
 के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पितरों के घरानों  
 के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उन को दिया वे ये हैं । जो २  
 आशा यहोवा ने मूसा के द्वारा साठे नौ गोत्रों के लिये  
 दी थी उस के अनुसार उन के भाग चिट्ठी डाल डाल  
 कर दिये गये । मूसा ने ती अर्दाई गोत्रों के भाग यर्दन ३  
 पार दिये थे पर लेवीयों को उस ने उन के बीच कोई  
 भाग न दिया था । यूसफ के वंश के ती दो गोत्र हो ४  
 गये थे अर्थात् मनश्शे और एप्रैम और उस देश में  
 लेवीयों को कुछ भाग न दिया गया केवल रहने के नगर  
 और पशु आदि धन रखने को चराइयां उन को मिलीं ।  
 जो आशा यहोवा ने मूसा को दी थी उस के अनुसार ५  
 इस्राएलियों ने किया और उन्होंने ने देश को बांट लिया ॥

यहूरी यहोशू के पास गिलगाल में आये और ६  
 कनजी यपुजे के पुत्र कालेब ने उस से कहा तू जानता  
 होगा कि यहोवा ने कादेशबर्ने में परमेश्वर के जन मूसा ७  
 से मेरे तेरे बिषय क्या कहा था । जब यहोवा के दास  
 मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने का कादेशबर्ने से  
 भेजा तब मैं चात्तीस बरस का था और मैं सच्चे मन  
 से उस के पास सन्देश ले आया । और मेरे साथी जो ८  
 मेरे संग गये थे उन्होंने ने तो प्रजा के लोगों का मन  
 निराश कर दिया पर मैं अपने परमेश्वर यहोवा के  
 पीछे पूरी रीति से हो लिया । सो उस दिन मूसा ने ९  
 किरिया खाकर मुझ से कहा कि तू जो पूरी रीति से मेरे  
 परमेश्वर यहोवा के पीछे हो लिया है इस कारण

(१) मूल में जैसा मेरे मन के साथ था वैसा ही ।

(२) मूल में गला दिया ।

- निःसन्देह जिस भूमि पर तू अपने पाँच घर आया है वह  
 १० सदा के लिये तेरा और तेरे बंश का भाग होगी । और  
 अब देख जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था  
 तब से जो पैंतालीस बरस बीते हैं जिन में इस्राएली  
 जंगल में घूमते फिरते रहे उन में यहोवा ने अपने कहे  
 ११ के अनुसार मुझे जीता रक्खा है और अब मैं पचासी  
 बरस का हुआ हूँ । जितना बल मूसा के भेजने के  
 दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है युद्ध  
 करने वा भीतर बाहर आने जाने के लिये जितना उस  
 समय मुझ में सामर्थ्य था उतना ही अब भी मुझ में  
 १२ सामर्थ्य है । सो अब वह पर्वत मुझे दे जिस की चर्चा  
 यहोवा ने उस दिन की थी तू ने तो उस दिन सुना  
 होगा कि उस में अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े  
 गढ़वाले नगर भी हैं पर क्या जाने यहोवा मेरे संग रहे  
 और उस के कहे के अनुसार मैं उन्हें उन के देश से  
 १३ निकाल दूँ । तब यहोशू ने उस को आशीर्वाद दिया और  
 १४ हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया । इस  
 कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज  
 लों बना है क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के पीछे  
 १५ पूरी रीति से हो लिया था । अगले समय में तो हेब्रोन  
 का नाम किर्यतर्बा था यह अर्बा अनाकियों में सब से बड़ा  
 पुरुष था । और उस देश को लड़ाई से शान्ति मिली ॥

### १५. यहूदियों के गोत्र का भाग उन के

- कुलों के अनुसार चिट्टी  
 डालने से एदोम के सिवाने लों और दक्खिन और सीन  
 २ के जंगल लों जो दक्खिनी सिवाने पर है ठहरा । उन के  
 भाग का दक्खिनी सिवाना खारे ताल के उस सिरेवाले  
 कोल से आरम्भ हुआ जो दक्खिन की ओर बढ़ा है ।  
 ३ और वह अक्रब्बीम नाम चढ़ाई की दक्खिन ओर से  
 निकल सीन होते हुए कादेशबर्ने की दक्खिन ओर को  
 चढ़ गया फिर हेसोन के पास हो अहार का चढ़ कर  
 ४ कर्काआ की ओर मुड़ गया । वहाँ से अम्मोन होते हुए  
 वह मिस्र के नाले पर निकला और उस सिवाने का  
 अन्त समुद्र हुआ तुम्हारा दक्खिनी सिवाना यही  
 ५ होगा । फिर पूरबी सिवाना यर्दन के मुहाने तक खारा  
 ताल ही ठहरा और उत्तर दिशा का सिवाना यर्दन के  
 मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके,  
 ६ बेथान्गला को चढ़ बेतरावा की उत्तर ओर होकर  
 ७ रूबेनी बोहनवाले नाम पत्थर लों चढ़ गया । और वही  
 सिवाना आकोर नाम तराई से दबीर की ओर चढ़ गया  
 और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर भुका जो नाले  
 की दक्खिन ओर की अदुम्मीम की चढ़ाई के साम्हने है

वहाँ से वह एनरोमेश नाम सोते के पास पहुँचकर एन-  
 रोगेल पर निकला । फिर वही सिवाना हिबोम के पुत्र  
 की तराई से होकर यबूस<sup>१</sup> जो यरुशलैम कहावता है  
 उस की दक्खिन अलंग से चढ़ते हुए उस पहाड़ की  
 चोटी पर पहुँचा जो पच्छिम और हिबोम की तराई के  
 साम्हने और रपाईम की तराई के उत्तरवाले सिरे पर है ।  
 फिर वही सिवाना उस पहाड़ की चोटी से नेतोह नाम सोते  
 को चला गया और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकला  
 फिर वहाँ से बाला को जो किर्यत्यारीम भी कहावता है  
 पहुँचा । फिर वह बाला से पच्छिम ओर मुड़कर सैर  
 १० पहाड़ लों पहुँचा और यारीम पहाड़ जो कसालोन भी  
 कहावता है उस की उत्तरवाली अलंग से होकर बेतशेमेश  
 को उतर गया और वहाँ से तिन्ना पर निकला । वहाँ से  
 ११ वह सिवाना एफ्रोन की उत्तरीय अलंग के पास होते हुए  
 शिकरोन को गया और बाला पहाड़ होकर यब्नेल पर  
 निकला और उस सिवाने का अन्त समुद्र का तीर हुआ ।  
 और पच्छिम का सिवाना महासमुद्र का तीर ठहरा ।  
 १२ यहूदियों को जो भाग उन के कुलों के अनुसार मिला  
 उस की चारों ओर का सिवाना यही हुआ ॥

और यपुन्ने के पुत्र कालेब को उस ने यहोवा की  
 १३ आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया अर्थात्  
 किर्यतर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है वह अर्बा अनाक का  
 पिता था । और कालेब ने वहाँ से शोशै अहीमन और  
 १४ तल्मी नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया । फिर  
 वहाँ से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया अगले  
 समय तो दबीर का नाम किर्यत्सेपेर था । और कालेब ने  
 १६ कहा जो किर्यत्सेपेर को मारके ले ले उसे मैं अपनी बेटी  
 अकसा को ब्याह दूँगा । सो कालेब के भाई ओन्नीएल  
 १७ कनजी ने उसे ले लिया और उस ने उसे अपनी बेटी  
 अकसा को ब्याह दिया । और जब वह उस के पास आई  
 १८ तब उस ने उस को पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा  
 फिर वह अपने गदहे पर से उतर पड़ी और कालेब ने  
 उस से पूछा तू क्या चाहती है । वह बोली मुझे आशी-  
 १९ र्वाद दे तू ने मुझे दक्खिन देश में की कुछ भूमि तो दी  
 है मुझे जल के सोते भी दे सो उस ने ऊपरला और  
 निचला दोनों सोते उसे दिये ॥

यहूदियों के गोत्र का भाग तो उन के कुलों के २०  
 अनुसार यही ठहरा ॥

और यहूदियों के गोत्र के किनारेवाले नगर दक्खिन २१  
 देश में एदोम के सिवाने की ओर ये हैं अर्थात् कबसेल  
 एदेर यागूर, कीना दीमोना अदादा, केदेश २२, २३

(१) मूल में यबूसी ।

२४, २५ हासोर यिलान, जीप तेलेम बालोत, हासोईदत्ता  
२६ करियोबेखोन जो हासोर भी कहावता है, अमाम शमा  
२७, २८ मेलादा, हसर्गहा हेरामोन बेरगलेउ, हसर्शुआल  
२९, ३० बेर्योबा बिज्योत्या, बाला इय्यीम एसेम, एलतोलद  
३१, ३२ कसील होर्मा, सिकलग मदमन्ना सनसन्ना, लबाओत  
शिल्हीम ऐन और रिम्मान ये सब नगर उन्तीस हैं  
और इन के गांव भी हैं ॥

३३ और नीचे के देश में ये हैं अर्थात् एशताओल  
३४, ३५ सोरा अशाना, जानोह एनगन्नीम तप्पूह एनाम, यर्मत  
३६ अदुल्लाम सोको अजेका, शरैम अदीतैम गदेरा और  
गदेरोतैम ये सब चौदह नगर हैं और इन के गांव  
भी हैं ॥

३७, ३८ फिर सनान हदाशा मिगदलगाद, दिलान  
३९, ४० मिस्ये योक्तेल, लाकीश योस्कत एरलोन, कन्धोन  
४१ लहमास कितलीश, गदेरोत वेतदागोन नामा और  
मक्केदा ये सोलह नगर हैं और इन के गांव भी हैं ॥

४२, ४३ फिर लिब्ना ऐतेर आशान, यिसाह अशाना नसीब,  
४४ कीला अकजीव और मारेशा ये नव नगर हैं और इन  
के गांव भी हैं ॥

४५, ४६ फिर नगरों और गांवों समेत एक्रोन, और  
एक्रोन से ले समुद्र लों अपने अपने गांवों समेत जितने  
नगर अशदोद की अलंग पर हैं ॥

४७ फिर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अशदोद  
और अज्जा बरन मिस के नाले तक और महासमुद्र के  
तीर लों जितने नगर हैं ॥

४८ और पहाड़ी देश में ये हैं अर्थात् शामीर यत्तीर  
४९ सोको, दन्ना किर्यत्सन्ना जो दबीर भी कहावता है,  
५०, ५१ अनाब एशतमो आनीम, गोशेन होलोन और गीली  
ये ग्यारह नगर हैं और इन के गांव भी हैं ॥

५२, ५३ फिर अराब दूमा एशान, यानीम बेत्तप्पूह  
५४ अपेका, हुमता किर्यतर्बा जो हेन्नोन भी कहावता है और  
सीओर ये नव नगर हैं और इन के गांव भी हैं ॥

५५, ५६ फिर माओन कर्मेल जीप यूता, यिज्जेल योकदाम  
५७ जानोह, कैन गिबा और तिम्ना ये दस नगर हैं और  
इन के गांव भी हैं ॥

५८, ५९ फिर हलहूल वेतसुर गदेर, मरात वेतनेत और  
एलतकोन ये छः नगर हैं और इन के गांव भी हैं ॥

६० फिर किर्यतबाल जो किर्यत्वारीम भी कहावता और  
रब्बा ये दो नगर हैं और इन के गांव भी हैं ॥

६१ और जंगल में ये नगर हैं अर्थात् बेतरावा मिह्रीन  
६२ सकाका, निवशान लेनवाला नग और एनगदी ये छः  
नगर हैं और इन के गांव भी हैं ॥

यरुशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी न निकाल दूँ  
सकें तो आज के दिन लों यबूसी यहूदियों के संग  
यरुशलेम में रहते हैं ॥

१६. फिर यूसुफ की सन्तान का भाग चिट्टी  
डालने से ठहराया गया उन का  
सिवाना यरीहो के पास की यर्दन नदी से अर्थात् पूरब  
और यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश  
होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुँचा । वहाँ से वह २  
लूज लों पहुँचा और एरेकियों के सिवाने होते हुए  
अतारोत पर जा निकला, और पच्छिम और यपलेतियों ३  
के सिवाने उतरके फिर नीचेवाले बेथोगेन के सिवाने  
होके गेजेर को पहुँचा और समुद्र पर निकला । सो मनशे ४  
और अप्रेम नाम यूसुफ के दोनों पुत्रों की सन्तान ने  
अपना अपना भाग लिया । एप्रेमियों का सिवाना उन ५  
के कुलों के अनुसार यह ठहरा अर्थात् उन के भाग का  
सिवाना पूरब से आरंभ होकर अत्रोतदार से होते हुए  
ऊपरले बेथोरोन लों पहुँचा । और उत्तरी सिवाना पच्छिम ६  
और के मिकमतात से आरंभ होकर पूरब और मुड़कर  
तानतशीलो को पहुँचा और उस के पास से होते हुए  
यानोह लों पहुँचा । फिर यानोह से वह अतारोत और ७  
नारा को उतरता हुआ यरीहो के पास ही कर यर्दन पर  
निकला । फिर वही सिवाना तप्पूह से निकल कर और ८  
पच्छिम और जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर  
निकला । एप्रेमियों के गोत्र का भाग उन के कुलों के  
अनुसार यही ठहरा । और मनशेइयों के भाग के बीच ९  
में कई एक नगर अपने अपने गांवों समेत एप्रेमियों  
के लिये अलग किये गये । पर जो कनानी गेजेर में बसे १०  
ये उन को एप्रेमियों ने वहाँ से न निकाला सो वे कनानी  
उन के बीच आज के दिन लों बसे हैं और बेगारी में  
दास का सा काम करते हैं ॥

१७. फिर यूसुफ के जेठे मनशे के गोत्र  
का भाग चिट्टी डालने से यह  
ठहरा । मनशे का जेठा गिलाद का पिता माकीर जो  
योद्धा था इस कारण उस के वंश को गिलाद और वाशान  
भिला । सो यह भाग दूसरे मनशेइयों के लिये उन के कुलों २  
के अनुसार ठहरा अर्थात् अत्रीएजेर हेलेक असीएल  
शेकेम हेपेर और शामीदा जो अपने अपने कुलों के अनुसार  
यूसुफ के पुत्र मनशे के वंश में के पुरुष थे उन के अलग  
अलग वंशों के लिये ठहरा । पर हेपेर जो गिलाद का ३

(१) मूल में सब ।

- पुत्र माकीर का पोता और मनश्शे का परपोता था उस के पुत्र लोफाद के बेटे नहीं बेटियाँ ही हुईं और उन के नाम महला नेआ हंग्ला मिलका और तिसाँ हैं ।
- ४ सो वे एलाजार याजक नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगीं यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हम को हमारे भाइयों के बीच भाग दे । सो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उन के चचाओं के बीच भाग दिया । सो मनश्शे को यर्दन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ दस भाग मिले ।
- ६ क्योंकि मनश्शेइयों के बीच मनश्शेई खियों को भी भाग मिला और दूसरे मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला ।
- ७ और मनश्शे का सिवाना आशोर से ले मिकमतात लों पहुँचा जो शकेम के साम्हने है फिर वह दक्खिन और दक्कर एनतप्पूह के निवासियों तक पहुँचा । तप्पूह की भूमि तो मनश्शे को मिली पर तप्पूह नगर जो मनश्शे के सिवाने पर बसा है, सो एप्रैमियों का ठहरा । फिर वहाँ से वह सिवाना काना के नाले तक उतर के उस की दक्खिन और तक पहुँच गया ये नगर यद्यपि मनश्शे के नगरों के बीच में थे तौभी एप्रैम के ठहरे और मनश्शे का सिवाना उस नाले की उत्तर ओर से जाकर समुद्र पर निकला । दक्खिन ओर का देश तो एप्रैम को और उत्तर ओर का मनश्शे का मिला और उस का सिवाना समुद्र ठहरा और वे उत्तर ओर आशोर से और पूरब ओर इस्साकार से लगे । और मनश्शे को इस्साकार और आशोर अपने अपने नगरों समेत बेतशान यिबलाम और अपने नगरों समेत दोर के निवासी और अपने नगरों समेत एनदोर के निवासी और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी और अपने नगरों समेत मगिहो के निवासी ये तीनों ऊँचे स्थानों पर बसे हैं । पर मनश्शेई उन नगरों के निवासियों को उन में से न निकाल सके सो वे कनानी उस देश में बगियाई से बसे रहे । तौभी जब इस्साएली सामर्थी हो गये तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे पर उन को पूरी रीति से निकाल न दिया ॥
- १४ यूसुफ की सन्तान यहोशू से कहने लगी हम तो गिनती में बहुत हैं क्योंकि अब लों यहोवा हमें आशिष देता आया है फिर तू ने हमारे भाग के लिये चिट्ठी डाल कर क्यों एक ही अंश दिया है । यहोशू ने उन से कहा यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रैम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिये छोटा हो तो परिज्जयों और रपाइयों का देश जो बन है उस में जाकर पेड़ों को काट डालो । यूसुफ की सन्तान ने कहा वह पहाड़ी देश हमारे लिये छोटा है और क्या बेतसान और उस के नगरों में रहनेहारे क्या

यिज्जेल की तराई में रहनेहारे जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं उन सबों के पास लोहे के रथ हैं । फिर यहोशू ने क्या एप्रैमी क्या मनश्शेई अर्थात् यूसुफ के सारे घराने से कहा हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारा बड़ा सामर्थ्य भी है सो तुम को केवल एक ही भाग न मिलेगा । पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा वह बन तो है पर उस के पेड़ काट डालो तब उस के आस पास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हों और उन के पास लोहे के रथ भी हों तौभी तुम उन्हें वहाँ से निकाल सकेगें ॥

१८. फिर इस्साएलियों की सारी मण्डली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहाँ

मिलापवाले तंबू को खड़ा किया क्योंकि देश उन के बश में आ गया था । और इस्साएलियों में से सात गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाये रह गये थे । सो यहोशू ने इस्साएलियों से कहा जो देश तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब लों ढिलाई करते रहेगें । अब गोत्र पीछे तीन मनुष्य ठहरा लो और मैं उन्हें इस लिये भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमें फिर और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उस का हाल लिख लिखकर मेरे पास लौट आएं । और वे देश के सात भाग लिखें यहूदी तो दक्खिन और अपने भाग में और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर ओर अपने भाग में रहें । और लेवीयों का तुम्हारे बीच कोई भाग न होगा क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजकपद ही उन का भाग है और गाद रुबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यर्दन की पूरब ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना भाग पा चुके हैं । और तुम देश के सात भाग लिखकर मेरे पास ले आओ और मैं वहाँ तुम्हारे लिये अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने चिट्ठी डालूंगा । सो वे पुरुष उठकर चल दिये और जो उस देश का हाल लिखने को चले उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी कि जाकर देश में घूमो फिर और उस का हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ और मैं वहाँ शीलो में यहोवा के साम्हने तुम्हारे लिये चिट्ठी डालूंगा । सो वे पुरुष चल दिये और उस देश में घूमे और उस के नगरों के सात भाग कर उन का हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आये । तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के साम्हने उन के लिये चिट्ठियाँ डालीं और वहीं यहोशू ने इस्साएलियों को उन के भागों के अनुसार देश बाँट दिया ॥

और बिन्धामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उन के कुलों

के अनुसार निकली और उन का भाग यहूदियों और  
 १२ यूसुफियों के बीच पड़ा। सो उन का उत्तरी सिवाना  
 यर्दन से आरंभ हुआ और यरीहो की उत्तर अलंग से  
 चढ़ते हुए पच्छिम और पहाड़ी देश में होकर बेताबेन के  
 १३ जंगल में निकला। वहाँ से वह लूज की पहुँचा जो बेतेल  
 भी कहावता है और लूज की दक्खिन अलंग से होते हुए  
 १४ निचले बेथोरोन की दक्खिन और के पहाड़ के पास हो  
 अश्रोतहार को उतर गया। फिर पच्छिमी सिवाना मुड़के  
 बेथोरोन के साम्हने और उस की दक्खिन और के पहाड़  
 से होते हुए किर्यतवाल नाम यहूदियों के एक नगर पर  
 निकला जो किर्यत्यारीम भी कहावता है पच्छिम का  
 १५ सिवाना यही ठहरा। फिर दक्खिन अलंग का सिवाना  
 पच्छिम से आरंभ कर किर्यत्यारीम के सिरे से निकल कर  
 १६ नेसोह के साते पर पहुँचा, और उस पहाड़ के सिरे पर  
 उतरा जो हिन्नोम के पुत्र की तराई के साम्हने और  
 रपाईम नाम तराई की उत्तर और है वहाँ से वह हिन्नोम  
 की तराई में अर्थात् यबूस की दक्खिन अलंग होकर  
 १७ एनगेगेल को उतरा। वहाँ से वह उत्तर और मुड़कर  
 एनशेमेश को निकल उस गलीलौत की ओर गया जो  
 अद्दुमीम की चढ़ाई के साम्हने है फिर वहाँ से वह  
 १८ लबेन के पुत्र बोहन के पत्थर को उतर गया। वहाँ से  
 वह उत्तर और जाकर अराबा के साम्हने के पहाड़ की  
 १९ अलंग से होते हुए अराबा को उतरा। वहाँ से वह  
 सिवाना बेथोग्ला की उत्तर अलंग से जाकर खाने ताल  
 की उत्तर और के कोल में यर्दन के मुहाने पर<sup>१</sup> निकला।  
 २० दक्खिन का सिवाना यही ठहरा। और पूरब और का  
 सिव ना यर्दन ही ठहरा। बिन्यामीनियों का भाग चारो  
 और के सिवाना सहित उन के कुलों के अनुसार यही  
 २१ ठहरा। और बिन्यामीनियों के गोत्र को उन के कुलों के  
 अनुमार ये नगर मिले अर्थात् यरीहो बेथोग्ला एमेकसीस,  
 २२, २३ बेतराबा समारैम बेतेल, अब्बीम पारा ओपा,  
 २४ कपरम्मोनी ओप्पी और गेबा ये बारह नगर और इन के  
 २५ २६ गांव मिले। फिर गिबोन रामा बेरोत, मिस्रे  
 २७, २८ कपीरा मोसा, रेकेम यिपेल तरला, सेला एलेप  
 यबूस जो बरुशलेम भी कहावता है गिबत और किर्यत  
 २९ ये चौदह नगर और इन के गांव उन्हें मिले। बिन्यामीनियों  
 का भाग उन के कुलों के अनुसार यही ठहरा ॥

१६. दूसरी चिट्ठी शिमो के नाम पर  
 अर्थात् शिमोनियों के कुलों  
 के अनुसार उन के गोत्र के नाम पर निकली और उन

(१) मूल में दक्खिनी सिरे पर ।

का भाग यहूदियों के भाग के बीच ठहरा। उन के भाग २  
 में ये नगर हैं अर्थात् बेशोबा शेबा मेलादा, हलशूआल ३  
 वाला एसेम, एलतोलद बतूल होर्मा, सिन्नग बेस्मकावोत ४, ५  
 हसशूला, बेतलबाओत और शारुहेन ये तेरह नगर और ६  
 इन के गांव उन्हें मिले। फिर ऐन रिम्मोन एतेर और ७  
 आशान ये चार नगर गांवों समेत, और बालत्वेर जो ८  
 दक्खिन देश का रामा भी कहावता है उस लों इन  
 नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों  
 के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ९  
 ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से  
 दिया गया क्योंकि यहूदियों का भाग उन के लिये बहुत  
 था इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के  
 बीच ठहरा ॥

तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उन के १०  
 नाम पर निकली और उन के भाग का सिवाना सारीद  
 तक पहुँचा। और उन का सिवाना पच्छिम और मरला ११  
 को चढ़कर दब्बेशेत का पहुँचा और योकनाम के साम्हने  
 के नाले लों पहुँच गया। फिर सारीद से वह सूर्योदय १२  
 की ओर मुड़कर किसलौत्तावोर के सिवाने लों पहुँचा और  
 वहाँ से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकला और यापी की ओर  
 चढ़ा। वहाँ से वह पूरब और आगे बढ़कर गथेपेर और १३  
 इत्कासीन को गया और उस रिम्मोन में निकला जो नेआ  
 से लगा है। वहाँ से वह सिवाना उस की उत्तर और १४  
 मुड़कर हन्नातोन पर पहुँचा और यितहेल की तराई में  
 निकला। कत्ता नहलाल शिन्नोन यिदला और बेतलेहेम १५  
 ये बारह नगर उन के गांवों समेत उसी भाग के ठहरें।  
 जबूलूनियों का भाग उन के कुलों के अनुसार यही ठहरा १६  
 और उस में अपने अपने गांवों समेत ये ही नगर हैं ॥

चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उन १७  
 के नाम पर निकली। और उन का सिवाना यिन्नल १८  
 कसुलौत शूनेम, हपारैम शीन्नोन अनाहरत, रब्बीत १९, २०  
 किर्योन एबेस, रेमेत एनगन्नीम एनहहा और बेत्पसेस २१  
 तक पहुँचा। फिर वह सिवाना ताबारशहसूमा और २२  
 बेतशेमेश लों पहुँचा और उन का सिवाना यर्दन नदी  
 पर निकला सो उन के सोलह नगर अपने अपने गांवों  
 समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का २३  
 भाग नगरी और गांवों समेत यही ठहरा ॥

पांचवीं चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार २४  
 उन के नाम पर निकली। उन के सिवाने में हेल्कत २५  
 हली बेतेन अच्चाप, अलम्मेल्लेक अमाद और मिशाल २६  
 ये और वह पच्छिम और कम्मेल लों और शीहलिब्नात  
 लों पहुँचा। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतदागोन २७



को गया और जबूलून के भाग लों और बितहेल की तराई से उत्तर और होकर बेतेमेक और नीएल लों पहुंचा २८ और उत्तर और जाकर काबूल पर निकला । और वह एक्रोन रहेब हम्मोन और काना से होकर बड़े सीदोन २९ के पहुंचा । वहां से वह सिवाना मुड़कर रामा से होते हुए सौर नाम गढ़वाले नगर लों चला गया फिर सिवाना हासा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में ३० होकर समुद्र पर निकला । उम्मा अपेक और रहेब भी उन के भाग में ठहरे सो बाईस नगर अपने अपने गांवों ३१ समेत उनको मिले । कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा ॥

३२ कूठवीं चिट्टी नसालीयों के कुलों के अनुसार उन ३३ के नाम पर निकली । और उन का सिवाना हेलैप से और साननीम में के बांअ वृत्त से अदामीनेकेब और यन्नेल से होकर और लक्कूम के जाकर यर्दन पर निकला । ३४ वहां से वह सिवाना पच्छिम और मुड़कर अजनेत्ताबोर को गया और वहां से हुक्केक को गया और दम्बिन और जबूलून के भाग लों और पच्छिम और आशेर के भाग लों और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग ३५ के पास की यर्दन नदी पर पहुंचा । और उन के गढ़वाले नगर ये हैं अर्थात् सिहोम सेर हम्मत रकत ३६, ३७ किन्नैरत, अदामा रामा हासोर, केदेश एद्रेई ३८ एन्हासेर, यिरोन, मिगदलेल, हेरेम, बेतनात और बेतशेमेश ये उन्नीस नगर गांवों समेत उनको मिले । ३९ कुलों के अनुसार नसालीयों के गोत्र का भाग नगरों और उन के गांवों समेत यही ठहरा ॥

४० सातवीं चिट्टी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र ४१ के नाम पर निकली । और उन के भाग के सिवाने में ४२ सौरा एशताओल ईरशेमेश, शालब्बीन अय्यालोन ४३, ४४ बितला, एलोन तिम्रा एक्रोन, एलैतके गिब्बेतोन ४५, ४६ बालात, यहूद बनेबरक गत्रिमोन, मेयकेोन और रकोन ठहरे और यापो के साम्हने का सिवाना भी उन का ४७ था । और दानियों का भाग इस से अधिक हो गया अर्थात् दानी लेशेम पर चढ़कर उस से लड़े और उसे लेकर तलवार से मार लिया और उस को अपने अधिकार में करके उस में बस गये और अपने मूलपुरुष के नाम पर ४८ लेशेम का नाम दान रक्खा । कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा ॥

४९ जब देश का सिवानों के अनुसार बांटा जाना निपट गया तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहोशू को ५० भी अपने बीच में एक भाग दिया । यहोवा के कहे के

(१) मूल में उन से ।

अनुसार उन्होंने ने उस को उस का मांगा हुआ नगर दिया यह एप्रैम के पहाड़ी देश में का तिन्नत्तेरह है और वह उस नगर को बसाकर उस में रहने लगा ॥

जो जो भाग एलाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू ५१ और इस्राएलियों के गोत्रों के घरानों के पितरों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने शिलो में मिलापवाले तंबू के द्वार पर यहोवा के साम्हने चिट्टी डाल डालके बांट दिये सो ये ही हैं निदान उन्होंने ने देश बांटना निपटा दिया ॥

(शरण नगरों का ठहराया जाना)

२०. फिर यहोवा ने यहोशू से कहा,

इस्राएलियों से यह कह कि मैं ने २

मूसा के द्वारा तुम से शरण नगरों की जो चर्चों की थी उस के अनुसार उन को ठहरा लो, जिस से जो कोई भूल ३ से बिन जाने किसी को मार डाले वह उन में से किसी में भाग जाए सो वे नगर खून के पलटा लेनेहारे से बचने के लिए तुम्हारे शरणस्थान ठहरे । वह उन नगरों में से ४ किसी को भाग जाय और उस नगर के फाटक में खड़ा होकर उस के पुरनियों को अपना मुकद्दमा कह सुनाए और वे उस को अपने नगर में अपने पास टिका लें और उसे कोई स्थान दें, जिस में वह उन के साथ रहे । और यदि खून का पलटा लेनेहारा उस का पीछा करे ५ तो वे यह जानकर कि उस ने अपने पड़ोसी को बिन जाने और पहिले उस से बिन बैर रखे मारा उस खूनी को उस के हाथ में न दें । और जब लों वह मरइली के ६ साम्हने न्याय के लिये खड़ा न हो और जब लों उन दिनों का महायाजक न मर जाए तब लों वह उसी नगर में रहे उस के पीछे वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिस से वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए । सो उन्होंने ने नसाली के पहाड़ी देश में ७ गालील के केदेश को और एप्रैम के पहाड़ी देश में शकेम को और यहूदा के पहाड़ी देश में किर्यतर्बा को जो हेब्रोन भी कहावता है पवित्र ठहराया । और यरीहां के पास के यर्दन की पूरब ओर उन्होंने ने रुबेन के गोत्र के भाग में बेलेर को जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा है और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रामोत के और मन्शेश के गोत्र के भाग में बाशान के गोलान को ठहराया । सारे इस्राएलियों के लिये और उन से बीच रहनेहारे परदेशियों के लिये भी जो नगर इस मनसा से ८ ठहराये गये कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले सो उन में से किसी में भाग जाए और जब लों न्याय के लिये मरइली के साम्हने खड़ा न हो तब लों खून का पलटा लेनेहारा उसे मार डालने न पाए सो ये ही हैं ९ ॥

(लेवीयों को बसने के नगरों का दिया जाना)

## २१. तब लेवीयों के पितरों के घरानों के

- मुख्य मुख्य पुरुष एलाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर, कनान देश के शिलो नगर में कहने लगे यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिये नगर और हमारे पशुओं के लिये उन्हीं नगरों की चराइयाँ भी देने की आज्ञा दिलाई थी। सो इस्राएलियों ने यहोवा के कहे के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवीयों के चराइयों समेत ये नगर दिये ॥
- १ कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्टी निकली सो लेवीयों में से हारून याजक के वंश का यहूदा शिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के भागों में से तेरह नगर मिले ॥
- २ और बाकी कहातियों को एप्रैम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्टी डाल डालकर दस नगर दिये गये ॥
- ३ और गेशोनियों का इस्राकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नसाली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्टी डाल डालकर तेरह नगर दिये गये ॥
- ४ और कुलों के अनुसार मरारीयों का रूबेन गाद और जबूलून के गोत्रों के भागों में से बारह नगर दिये गये ॥
- ५ जो आज्ञा यहोवा ने मूसा से दिलाई थी उस के अनुसार इस्राएलियों ने लेवीयों के चराइयों समेत ये नगर चिट्टी डाल डालकर दिये। उन्हीं ने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से ये नगर जिन के नाम लिखे हैं दिये। ये नगर लेवीय कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिये ये क्योंकि पहिली चिट्टी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात् उन्हीं ने उन का यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किर्यतर्बा नगर दे दिया जो अनाक के पिता अर्बा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहावता है, पर उस नगर के खेत और उस के गाँव उन्हीं ने यपुजे के पुत्र कालेब को उस की निज भूमि करके दे दिये। सो उन्हीं ने हारून याजक के वंश के चराइयों समेत खूनी के शरण के नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यत्तीर एश-१५, १६ तमो, होलोन दबीर, ऐन युत्ता और बेतशेमेश दिये सो उन दोनों गोत्रों के भागों में से नव नगर दिये गये।
- १७ और बिन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये चार नगर दिये गये अर्थात् गिबोन गैबा,

अनातोत और अल्मोन, सो हारूनवंशी याजकों को १८, १९ तेरह नगर और उन की चराइयाँ मिलीं ॥

फिर बाकी कहाती लेवीयों के कुलों के भाग के २० नगर चिट्टी डाल डालकर एप्रैम के गोत्र के भाग में से दिये गये। अर्थात् उन को चराइयों समेत एप्रैम के पहाड़ी २१ देश में खूनी के शरण लेने का शकैम नगर दिया गया फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, किवसैम और २२ बेथारोन ये चार नगर दिये गये। और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत एलतके गिब्बतोन, अय्यालोन और गत्रिम्मोन ये चार नगर दिये गये। और मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रिम्मोन ये दो नगर दिये गये। सो बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर २६ चराइयों समेत दस ठहरे ॥

फिर लेवीयों के कुलों में के गेशोनियों को मनश्शे २७ के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण का नगर बाशान का गोलान और बेश-तरा ये दो नगर दिये गये। और इस्राकार के गोत्र के भाग २८ में से अपनी अपनी चराइयों समेत किर्योन दाबरत, यर्मत और एनगलीम ये चार नगर दिये गये। और आशेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल अब्दोन, हेल्कात और रहेब ये चार नगर दिये गये। और नसाली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण का नगर गालील का प्रदेश फिर हम्मोतदोर और कर्तान ये तीन नगर दिये गये। गेशोनियों के कुलों के अनुसार उन के सब नगर ३३ अपनी अपनी चराइयों समेत ठहरे ॥

फिर बाकी लेवीयों अर्थात् मरारीयों के कुलों का जबूलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योफनाम कर्ता, दिम्ना और नहलाल ये चार नगर ३५ दिये गये। और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसे, यहसा, कदेमोत और मेपात ये चार ३७ नगर दिये गये। और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण का नगर गिलाद में का रामोत फिर महनैम, देशबोन और याजेर जो सब मिलाकर चार नगर हैं दिये गये। लेवीयों के बाकी कुलों अर्थात् ४० मरारीयों के कुलों के अनुसार उन के सब नगर ये ही ठहरे सो उन के बारह नगर चिट्टी डाल डालकर दिये गये ॥

इस्राएलियों की निज भूमि के बीच लेवीयों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत अड़तालीस ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे इन सब नगरों की यही दशा थी ॥

४१ और यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उस ने उन के पितरों को किरिया खाकर देने कहा था और वे उस के अधिकारी होकर उस में बस गये । और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उस ने उन के पितरों से किरिया खाकर कही थी उन्हें चारों ओर से विभ्राम दिया और उन के शत्रुओं में से कोई भी उन के साम्हने खड़ा न रहा यहोवा ने उन सभी को उन के वश में कर दिया । जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी उन में से कोई बात न छूटी सब की सब पूरी हुई ॥

२२. उस समय यहोशू ने रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों

१ को बुलवा कर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी सो सब तुम ने मानी है और जो जो आज्ञा मैं ने तुम्हें दी है उन सभी को भी तुम ने माना है । आज के दिन लो यह जो बहुत समय बीता है इस में तुम ने अपने भाइयों को कभी नहीं त्यागा अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुम ने चौकसी से मानी है । और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विभ्राम दिया है सो अब तुम लौट के अपने अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में जिसे यहोवा के दास मूसा ने यर्दन पार तुम्हें दिया चले जाओ । इतना ही कि इस में पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुम को दी उस को मान कर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो उस के सारे मार्गों पर चलो उस की आज्ञाएं मानो उस की भक्ति में लक्ष्मीन रहो और अपने सारे मन और सारे जीव से उस की सेवा करो । तब यहोशू ने उन्हें अशीर्वाद देकर बिदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले ॥

७ मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बासान में भाग दिया था पर दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उन के भाइयों के बीच यर्दन की पच्छिम ओर भाग दिया । उन को जब यहोशू ने बिदा किया कि अपने अपने डेरे को जायें तब उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी सोना पीतल सोहा और बहुत से बख और बहुत धन संपत्ति लिये हुए अपने अपने डेरे को लौट जाओ और अपने शत्रुओं के यहां को लूट अपने भाइयों के संग बांट लेना ॥

९ तब रूबेनी गादी और मनश्शे के आधे गोत्री इस्राएलियों के पास से अर्थात् कनान देश के शीलो नगर से अपनी गिलाद नाम निज भूमि में जो मूसा से दिलाई हुई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन की निज

भूमि हो गई थी जाने की मनसा से लौट गये । और जब रूबेनी गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यर्दन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है तब उन्होंने ने वहां देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई । तब इस का समाचार इस्राएलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के साम्हने यर्दन की तराई में अर्थात् उस के उस पार जो इस्राएलियों का है एक वेदी बनाई है । जब इस्राएलियों ने यह सुना तब इस्राएलियों की सारी मण्डली उन से लड़ने के लिये चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई ॥

तब इस्राएलियों ने रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलाजार याचक के पुत्र पीनहास को, और उस के संग दस प्रधानों को अर्थात् इस्राएल के एक एक गोत्र में से पितरों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा और वे इस्राएल के हजारों में अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे । सो वे गिलाद देश में रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मण्डली ये कहती है कि यह क्या विश्वासघात है जो तुम ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का किया है । आज जो तुम ने एक वेदी बना ली है इस में तुम ने उस के पीछे चलना छोड़कर उस के विरुद्ध बलवा किया है । देखो पार के विषय का अधर्म यद्यपि यहोवा की मण्डली को भारी दण्ड मिला तो भी आज के दिन लो हम उस अधर्म से शुरू नहीं हुए क्या वह तुम्हारे लेखे ऐसा थोड़ा है, कि आज तुम यहोवा के पीछे चलना छोड़ देते हो । आज तुम यहोवा से फिर जाते और कल वह इस्राएल की सारी मण्डली से क्रोधित होगा । पर यदि तुम्हारा निज भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहावा की निज भूमि में जहां यहोवा का निवास रहता है हम लोगों के बीच अपनी अपनी निज भूमि कर लो पर हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से फिर जाओ और न हम से । देखो जब जेरही आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय विश्वासघात किया तब क्या यहोवा का इस्राएल की सारी मण्डली पर क्रोध न भड़का और उस पुरुष के अधर्म का प्राणदण्ड अकेले उसी को न मिला ॥

तब रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया कि, यहोवा जो ईश्वर बरन परमेश्वर है सोई ईश्वर परमेश्वर यहोवा इस को जानता है और इस्राएल भी इसे जान ले कि यदि यहोवा से फिरके वा उस का

विश्वासघात करके हम ने यह काम किया हो तो आज  
 २३ हम न बचें। यदि हम ने वेदी को इसलिये बनाया हो  
 कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ें वा इसलिये कि उस  
 पर होमबलि अन्नबलि वा मेलबलि चढ़ाएँ तो यहोवा  
 २४ आप इस का लोखा लें। हम ने इसी चिन्ता और मनसा  
 से यह किया है कि क्या जाने आगे को तुम्हारी सन्तान  
 हमारी सन्तान से कहने लगे कि तुम को इस्राएल के  
 २५ परमेश्वर यहोवा से क्या काम, हे रुबेनियो हे गादियो  
 यहोवा ने जो हमारे तुम्हारे बीच में यर्दन का सिवाना  
 कर दिया है सो यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं ऐसा  
 कह कर तुम्हारी सन्तान हमारी सन्तान में से यहोवा का  
 २६ भय छुड़ा दे। सो हम ने कहा आओ एक वेदी बना  
 लें वह होमबलि वा मेलबलि के लिये नहीं, पर इसलिये  
 २७ कि हमारे तुम्हारे और हमारे पीछे हमारे तुम्हारे वंश के बीच  
 साक्षी का काम दे। इसलिये कि हम होमबलि मेलबलि  
 और बलिदान चढ़ा कर यहोवा के सम्मुख उस की  
 उपासना करें और आगे के समय तुम्हारी सन्तान हमारी  
 २८ सन्तान से न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग  
 नहीं। सो हम ने कहा जब वे लोग आगे के समय में हम  
 से वा हमारे वंश से यों कहने लगे तब हम उन से कहेंगे कि  
 यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो  
 इसे हमारे पुरुखाओं ने हंमबलि वा मेलबलि के लिये नहीं  
 बनाया पर इसलिये बनाया था कि हमारे तुम्हारे बीच  
 २९ साक्षी का काम दे। यह हम से दूर रहे कि यहोवा से फिरके  
 आज उस के पीछे चलना छोड़ें और अपने परमेश्वर यहोवा  
 की उस वेदी का छोड़ जो उस के निवास के साम्हने है  
 होमबलि अन्नबलि वा मेलबलि के लिये दूसरी वेदी बनाएँ ॥  
 ३० रुबेनियो गादियो और मनश्शे के आधे गोत्रियों  
 की इन बातों को सुन कर पीनहास याजक और उस के  
 संगी मण्डली के प्रधान जो इस्राएल के हजारों के मुख्य  
 ३१ पुरुष थे सो प्रसन्न हुए। और एलाजार याजक के पुत्र  
 पीनहास ने रुबेनियो गादियो और मनश्शेद्यों से कहा  
 तुम ने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया इस  
 से हम को आज निश्चय हुआ है कि यहोवा हमारे बीच  
 है सो तुम लोगों ने इस्राएलियों को यहोवा के हाथ से  
 ३२ बचाया है। तब एलाजार याजक का पुत्र पीनहास प्रधानों  
 ममेत रुबेनियो और गादियो के पास से गिलाद से कनान  
 देश में इस्राएलियों के पास लौट गया और यह वृत्तान्त  
 ३३ उन को कह सुनाया। तब इस्राएली प्रसन्न हुए और  
 परमेश्वर को धन्य कहा और रुबेनियो और गादियो से  
 लड़ने और उन के रहने का देश उजाड़ने के लिये  
 ३४ चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। और रुबेनियो और

गादियो ने यह कहकर कि यह वेदी हमारे और उन के बीच  
 इस बात की साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है  
 उस वेदी का नाम पद<sup>१</sup> रक्खा ॥

(यहोशू के पिछले उपदेश)

२२. इस के बहुत दिन पीछे जब यहोवा ने  
 इस्राएलियों को उन के चारों ओर  
 के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत  
 दिनी हुआ था, तब यहोशू सब इस्राएलियों को अर्थात् २  
 पुरनियों मुख्य पुरुषों न्याइयों और सरदारों को बुलावा कर  
 कहने लगा मैं तो बूढ़ा और बहुत दिनी हो गया हूँ।  
 और तुम ने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने ३  
 तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है  
 क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है सो तुम्हारा  
 परमेश्वर यहोवा है। देखो मैं ने इन बची हुई जातियों ४  
 को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया  
 है और यर्दन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र  
 लों रहनेवाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही किया है  
 जिन को मैं ने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर ५  
 यहोवा उन को तुम्हारे साम्हने से धकियाकर उन के देश  
 से निकाल देगा और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के  
 वचन के अनुसार उन के देश के अधिकारी हो जाओगे।  
 सो बहुत दियाव बान्धकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था ६  
 की पुस्तक में लिखा है उस के करने में चौकसी करना  
 उ३ से न तो दहिने मुड़ना और न बाएँ। ये जो जातियाँ ७  
 तुम्हारे बीच रह गई हैं इन के बीच न जाना इन के  
 देवताओं के नामों की चर्चा तक न करना न उन की  
 किरिया खिलाना न उन की उपासना न उन को दण्डवत्  
 करना। परन्तु जैसे आज के दिन लों तुम अपने परमेश्वर ८  
 यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा  
 करना। यहोवा ने तुम्हारे साम्हने से बड़ी बड़ी और ९  
 बलवन्त जातियाँ निकाली हैं और तुम्हारे साम्हने आज  
 के दिन लों कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य १०  
 हजार मनुष्यों के भगाएगा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर  
 यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता  
 है। सो अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी ११  
 चौकसी करना। क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से १२  
 फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगे जो  
 तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं और इन से न्याह शादी  
 करके इन के साथ समधियाना करो, तो निश्चय जानो १३  
 कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को  
 तुम्हारे साम्हने से न निकालेगा और ये तुम्हारे लिये जाल

(१) जयोंद साक्षी।

और फंदे और तुम्हारे राज्यों के लिये केड़े और तुम्हारी  
 आंखों में कटि ठहरेंगी और अन्त में तुम इस अच्छी  
 भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है  
 १५ नाश हो जाओगे । सुनो मैं तो अब सभ संचारियों की  
 गति पर जानेहारा हूँ और तुम सब अपने अपने हृदय  
 और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे  
 परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय कहीं उन में से एक भी  
 बिना पूरी हुए नहीं रही वे सब की सब तुम पर घट गई  
 १६ हैं उन में से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही । सो जैसे  
 तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की  
 बातें तुम पर घटी हैं वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें  
 भी तुम पर घटाते घटाते तुम को इस अच्छी भूमि पर से  
 जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है सत्यानाश  
 १६ कर डालेगा । जब तुम उस वाचा को जिसे तुम्हारे  
 परमेश्वर यहोवा ने तुम को आशा देकर अपने साथ  
 बन्धाया है उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना  
 और उन को डण्डवत् करने लगो तब यहोवा का कोप  
 तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से जिसे  
 उस ने तुम को दिया है वेग नाश हो जाओगे ॥

**२४. फिर** यहोश ने इस्राएल के सब  
 गोत्रियों को शेकेम में इकट्ठा

किया और इस्राएल के पुरनियों मुख्य पुरुषों न्यायियों  
 और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के साम्हने  
 १ हाजिर हुए । तब यहोश ने उन सब लोगों से कहा  
 इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि प्राचीन  
 काल में इब्राहीम और नाहोर का पिता तेरह आदि  
 तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे  
 १ देवताओं की उपासना करते थे । और मैं ने तुम्हारे  
 मूलपुरुष इब्राहीम को महानद के उस पार से ले आकर  
 कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उस का वंश  
 ४ बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया । फिर मैं ने इसहाक  
 को याकूब और एसाब को दिया और एसाब को मैं ने  
 सेईर नाम पहाड़ी देश दिया कि वह उस का अधिकारी  
 ५ हो पर याकूब वेठो पोतों समेत मिस्र को गया । फिर मैं ने  
 मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा  
 जो मैं ने मिस्र के बीच किये उस देश को मारा और पीछे  
 ६ तुम को निकाल लाया । और मैं तुम्हारे पुरखाओं को  
 मिस्र में से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुंचे  
 और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग ले लाल समुद्र  
 ७ लों तुम्हारा पीछा किया । और जब तुम ने यहोवा की

दोहाई दी तब उस ने तुम लोगों और मिस्रियों के बीच  
 अधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उन  
 को डुबो दिया और जो कुञ्ज मैं ने मिस्र में किया उसे  
 तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा फिर तुम बहुत दिन  
 जङ्गल में रहे । पीछे मैं तुम को उन एमोरियों के देश  
 ८ में ले आया जो यर्दन के उस पार बसे थे और वे तुम  
 से लड़े और मैं ने उन्हें तुम्हारे बश में कर दिया सो तुम  
 उन के देश के अधिकारी हो गये और मैं ने उन को  
 तुम्हारे साम्हने से सत्यानाश कर डाला । फिर मोआब  
 ९ के राजा सिप्गोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से  
 लड़ा और तुम्हें साप देने के लिये बोर के पुत्र बिलाम  
 को बुलवा भेजा । पर मैं ने बिलाम की सुनने से नाह  
 १० किया वह तुम को आशिष ही आशिष देता गया सो मैं  
 ने तुम को उस के हाथ से बचाया । तब तुम यर्दन पार  
 ११ होकर यरीहो के पास आये और जब यरीहो के लोग और  
 एमोरी परिज्जी कनानी हिप्ती गिर्गशी हिष्वी और यबूसी  
 तुम से लड़े तब मैं ने उन्हें तुम्हारे बश कर दिया ।  
 और मैं ने तुम्हारे आगे बरों को भेजा और उन्होंने ने  
 १२ एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे साम्हने से भगा  
 दिया देखो यह तुम्हारी तलवार वा धनुष का काम नहीं  
 हुआ । फिर मैं ने तुम्हें ऐसा देश दिया जिस में तू ने  
 १३ परिश्रम न किया था और ऐसे नगर भी दिये हैं जिन्हें  
 तुम ने न बसाया था और तुम उन में बसे हो और जिन  
 दाख और जलपाई की बारियों के फल तुम खाते हो  
 उन्हें तुम ने न लगाया था । सो अब यहोवा का भय  
 १४ मानकर उस की सेवा खराई और सच्चाई से करो और  
 जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस  
 पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की  
 सेवा करो । और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुर  
 १५ लगे तो आज चुन लो कि किस की सेवा करोगे चाहे  
 उन देवताओं की जिन की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद  
 के उस पार करते थे चाहे एमोरियों के देवताओं की  
 सेवा करो जिन के देश में तुम रहते हो पर मैं तो घराने  
 १६ समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा । तब लोगों ने उत्तर  
 दिया यहोवा को त्यागकर दूसरे देवताओं की सेवा  
 १७ करनी यह हम से दूर रहे । क्योंकि हमारा परमेश्वर  
 यहोवा वही है जो हम को और हमारे पुरखाओं को  
 दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निकाल ले आया  
 और हमारे देखते बड़े बड़े आश्चर्यकर्म किये और  
 जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के बीच हम चले  
 आते थे उन में हमारी रक्षा की, और हमारे  
 १८ साम्हने से इस देश में रहनेहारी एमोरी आदि सब

जातियों को निकाल दिया है सो हम भी यहोवा की  
 १६ सेवा करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने  
 लोगों से कहा तुम से यहोवा की सेवा नहीं हो सकती  
 क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है वह जलन रखनेहारा ईश्वर  
 २० है वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि  
 तुम यहोवा को त्यागकर बिराने देवताओं की सेवा करने  
 लगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तभी  
 पीछे तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अन्त भी कर  
 २१ डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा नहीं हम यहोवा ही  
 २२ की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा तुम आप ही  
 अपने सच्ची हो कि तुम ने यहोवा की सेवा करनी अंगी-  
 २३ कार कर ली है। उन्होंने ने कहा हां हम सच्ची हैं। यहोशू  
 ने कहा अपने बीच के बिराने देवताओं को दूर करके  
 अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर  
 २४ लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा हम तो अपने परमेश्वर  
 यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे।  
 २५ तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बन्धाई  
 और शकेम में उन के लिये विधि और नियम ठहराया ॥  
 २६ यह सारा वृत्तान्त यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था  
 की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर  
 वहां उस बाजबृद्ध के तले खड़ा किया जो यहोवा के  
 २७ पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा  
 सुनो यह पत्थर हम लोगों का सच्ची रहेगा क्योंकि जितने

वचन यहोवा ने हम से कहे हैं उन्हें इस ने सुना है सो  
 यह तुम्हारा सच्ची रहेगा न हो कि तुम अपने परमेश्वर  
 को मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने २८  
 निज भाग पर जाने के लिये बिदा किया ॥

(यहोशू और पलाजार का मरना)

इन बातों के पीछे यहोवा का दास नून का पुत्र २९  
 यहोशू एक सौ दस बरस का होकर मर गया। और उस ३०  
 को तिभ्रत्सेरह में जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गाश नाम  
 पहाड़ की उत्तर अक्षरंग पर है उसी के भाग में मिट्टी दी  
 गई। और यहोशू के जीवन भर और जो पुरनिये ३१  
 यहोशू के मरने के पीछे जीते रहे और जानते थे कि  
 यहोवा ने इस्राएल के लिये कैसे कैसे काम किये थे  
 उन के भी जीवन भर इस्राएली यहोवा की सेवा करते  
 रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले ३२  
 आये थे सां शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गईं  
 जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से एक सौ कर्मीतों  
 में मोल लिया था सो वह यूसुफ की सन्तान का निज  
 भाग हो गया। फिर हारून का पुत्र पलाजार भी मर ३३  
 गया और उस को एप्रैम के पहाड़ी देश में की उस  
 पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उस के पुत्र पीनहास के  
 नाम पर गिबत्सानहास कहलाती है और उस को दी  
 गई थी ॥

## न्यायियों का वृत्तान्त ।

(कनानियों में से किसी किसी का नारा होना  
 और किसा किसी का रह जाना)

१. यहोशू के मरने के पीछे इस्राएलियों ने  
 यहोवा से पूछा कि कनानियों  
 के विरुद्ध लड़ने को हमारा और से पहिले कौन चढ़ाई  
 २ करेगा। यहोवा ने उत्तर दिया यहूदा चढ़ाई करेगा  
 सुनो मैं ने इस देश को उस के हाथ में दे दिया है।  
 ३ सो यहूदा ने अपने भाई शिमीन से कहा मेरे संग मेरे  
 भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें और मैं भी तेरे  
 ४ भाग में जाऊंगा सो शिमीन उस के संग चला। और  
 यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और  
 परिजियों को उस के हाथ में कर दिया सो उन्हो ने  
 ५ बेजेक में उन में से दस हजार पुरुष मार डाले। और बेजेक  
 में अदानो बेजेक का पाकर वे उस से लड़े और

कनानियों और परिजियों को मार डाला। पर अदोनी- ६  
 बेजेक भागा तब उन्हो ने उस का पीछा करके उसे  
 पकड़ लिया और उस के हाथ पांव के अंगूठे काट ७  
 डाले। तब अदोनीबेजेक ने कहा हाथ पांव के अंगूठे  
 काटे हुए सत्तर राजा मेरी मेज के नीचे डकड़ें अनंत थे  
 जैसा मैं ने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे  
 दिया है। तब व उसे यरूशलेम को ले गये और वहां  
 वह मर गया ॥

और यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया ८  
 और तलवार से उस के निवासियों को मार डाला और  
 नगर को फूंक दिया। और पीछे यहूदी पहाड़ी देश और ९  
 दक्खिन देश और नाचे के देश में रहनेवाले कनानियों  
 से लड़ने को गये। और यहूदा ने उन कनानियों पर १०  
 चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम तो  
 अगले समय में किर्यतर्बा था। और उन्हो ने शोरी

- ११ अहीमन और तरुमै को मार डाला । वहाँ से उस ने  
आकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की । दबीर का  
१२ नाम तो अगले समय में किर्यत्सेपेर था । तब कालेब  
ने कहा जो किर्यत्सेपेर को मारके ले ले उसे मैं अपनी  
१३ बेटी अन्सा को ब्याह दूंगा । सो कालेब के छोटे भाई  
कनजी बोकीएल ने उसे ले लिया और उस ने उसे  
१४ अपनी बेटी अकसा को ब्याह दिया । और जब वह  
बोकीएल के पास आई तब उस ने उस को पिता से कुछ  
भूमि मांगने को उभारा फिर वह अपने गद्दे पर से  
उतरी तब कालेब ने उस से पूछा तू क्या चाहती है ।  
१५ वह उस से बोली मुझे आशीर्वाद दे तू ने मुझे दक्खिन  
देश तो दिया है जल के सोते भी दे सो कालेब ने उस  
को ऊपर और नीचे के दोनों सोते दिये ॥
- १६ और मूसा के सारे एक केनी मनुष्य के सन्तान  
यहूदा के संग खजरवाले नगर से यहूदा के जंगल में  
गये जो अराद के दक्खिन और है और जाकर इजापली  
१७ लोगों के साथ रहने लगे । फिर यहूदा ने अपने भाई  
शिमोन के संग जाकर सप्त में रहनेहारे कनानियों को  
मार लिया और उस नगर को सत्यानाश कर डाला सो  
१८ उस नगर का नाम होर्मा<sup>१</sup> पड़ा । और यहूदा ने चारों  
ओर की भूमि समेत अजा अशकलोन और एकोन को  
१९ ले लिया । और यहोवा यहूदा के साथ रहा सो उस ने  
२० पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया । पर नीचान के  
निवासियों के पास लोहे के रथ थे इसलिये वह उन्हें न  
निकाल सका और उन्हें ने मूसा के कहे के अनुसार हेब्रान  
कालेब को दिया और उस ने वहाँ से अनाक के तीनों पुत्रों  
२१ को निकाल दिया । और यरूशलेम में रहनेहारे यबूसियों  
को बिन्यामीनियों ने न निकाला सो यबूसी आज के  
दिन लौं यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं ॥
- २२ फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की और  
२३ यहोवा उन के संग था । और यूसुफ के घराने ने बेतेल  
२४ का मेद लेने को लोग भेजे । और उस नगर का नाम  
अगले समय में लूज था । और पहलकों ने एक मनुष्य  
को उस नगर से निकलते हुए देखा और उस से कहा  
नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर  
२५ दया करेंगे । सो उस ने उन्हें नगर में जाने का मार्ग  
दिखाया तब उन्हें ने नगर को तो तलवार से मार पर  
२६ उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया । उस  
मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया  
और उस का नाम लूज रक्खा और आज के दिन लौं  
उस का नाम वही है ॥

(१) अर्थात्, सत्यानाश करना ।

मनश्शे ने अपने अपने गाँवों समेत बेतशान २७  
तानाक दोर यिबलाम और मगिहो के निवासियों को न  
निकाला सो कनानी बरियाई करके उस देश में बसे रहे ।  
पर जब इस्राएली सामर्थी हुए तब उन्हें ने कनानियों से २८  
बेगारी कराई पर उन्हें पूरी रीति से न निकाला ॥

और एग्रैम ने गेजेर में रहनेवाले कनानियों को न २९  
निकाला सो कनानी गेजेर में उन के बीच बसे रहे ॥

जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को ३०  
न निकाला सो कनानी उन के बीच बसे रहे और बेगारी  
में रहे ॥

आशेर ने अफो सीदोन अहलाब अकजीब हेलाबा ३१  
अपीक और रहोब के निवासियों को न निकाला । सो ३२  
आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस  
गये क्योंकि उन्हें ने उन को न निकाला था ॥

नताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों को ३३  
न निकाला पर देश के निवासी कनानियों के बीच बस  
गये तोभी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उन की  
बेगारी करते थे ॥

और एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा ३४  
दिया और नीचान में आने न दिया । सो एमोरी बरियाई ३५  
करके हेरेस नाम पहाड़ अय्यलोन और शालबीम में बसे  
रहे तोभी यूसुफ का घराना यहां लौं प्रबल हो गया कि  
वे बेगारी करने लगे । और एमोरियों का देश अकब्बीम ३६  
नाम चढ़ाई जे और दांग से ऊपर की ओर था ॥

(इजापलियों का बिगड़ना और इस का दंड भोगना और फिर  
पछताकर छुटकारा पाना)

२. और यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम  
को जाकर कहने लगा कि मैं ने  
तुम को मिस्र से ले आकर इस देश में पहुँचाया है  
जिस के विषय मैं ने तुम्हारे पुरखाओं से किरिया खाई  
थी और मैं ने कहा था कि जा बाचा मैं ने तुम से बांधी  
है सो मैं कभी न तोड़ूंगा । सो तुम इस देश के निवासियों १  
से बाचा न बांधना तुम उन की वेदियों को ठा देना  
पर तुम ने मेरी बात नहीं मानी तुम ने ऐसा क्यों किया  
है । सो मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुम्हारे साम्हने ३  
से न निकालूँगा वे तुम्हारे पाजर में काँटे और उन के  
देवता तुम्हारे लिये फंसे ठहरेंगे जब यहोवा के दूत ४  
ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कहीं तब वे लोग चिह्ला  
चिह्लाकर रोने लगे । और उन्हें ने उस स्थान का नाम ५  
बोकीम<sup>१</sup> रक्खा और वहाँ उन्हें ने यहोवा के लिये बलि  
चढ़ाया ॥

(१) अर्थात् रोनेहारे ।

६ जब यहोशू ने लोगों को विदा किया तब इस्राएली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिये अपने अपने निज भाग पर गये । और यहोशू के जीवन भर और उन पुरनियों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के पीछे जीते रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिये कैसे कैसे बड़े काम किये इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे । निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू एक सौ दस बरस का होकर मर गया । और उस को तिम्नथेरस में जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गाश नाम पहाड़ की उत्तर अर्धग पर है उसी के भाग में मिट्टी दी गई । और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गये तब उन के पीछे जो दूसरी पीढ़ी हुई उस के लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उस ने इस्राएल के लिये किया था ॥

११ सो इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा के लेखे में बुरा है और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे । वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें इस देश से निकाल लाया था त्यागकर पराये देवताओं अर्थात् आसपास के लोगों के देवताओं के पीछे हो लिये और उन्हें दण्डवत् किया और यहोवा को रिस दिलाई ।

१३ वे यहोवा को त्याग करके बाल देवता और अशतोरेत देवियों की उपासना करने लगे । सो यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा और उस ने उन को लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे और उस ने उन को चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के साम्हने ठहर न सके । जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उन की बुराई में लगा रहता था जैसे कि यहोवा ने उन से कहा था बरन यहोवा ने किरिया भी खाई थी सो वे बड़े संकट में पड़ते थे । तौभी यहोवा उन के लिये न्यायी ठहराता था जो उन्हें लूटनेहारों के हाथ से छुड़ाते थे । पर वे अपने न्यायियों की न मानते बरन व्यभिचारिन की नाई पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दण्डवत् करते थे उन के पितर जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे उन की उस लीक को उन्हों ने शीघ्र ही छोड़ दिया और उन के अनुसार न किया । और जब जब यहोवा उन के लिये न्यायी को ठहराता तब तब वह उस न्यायी के संग रहकर उस के जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था क्योंकि यहोवा उन का कराहना जो अंधेर और उपद्रव करनेहारों के कारण होता था सुनकर पछताता था ।

१६ पर जब न्यायी मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर और उन की उपासना और उन्हें दण्डवत्

करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को न छोड़ते थे । सो यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और उस ने कहा इस जाति ने उस वाचा को जो मैं ने उन के पितरों से बान्धी थी तोड़ दिया और मेरी नहीं मानी, इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है उन में से मैं अब किसी को उन के साम्हने से न निकालूंगा, जिस से उन के द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उन के पितर मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही वे भी चलेंगे कि नहीं । सो यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाल कर रहने दिया और उस ने उन्हें यहोशू के वश में न कर दिया था ॥

### ३. इस्राएलियों में से जितने कनान में की

लड़ाइयों में भागी न हुए थे उन्हें परखने के लिये यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिये रहने दिया, कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहिले न जानते थे वे सीखें और जान लें अर्थात् पांचों सरदारों समेत पलिशतियों और सब कनानियों और सीदोनियों और बालहेर्मान नाम पहाड़ से ले हमात की घाटी लं लबानोन पर्वत में रहनेहारों हिबियों को । ये इसलिये रहने पाये कि इन के द्वारा इस्राएलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा से उन के पितरों को दिलाई थीं उन्हें वे मानेंगे वा नहीं । सो इस्राएली कनानियों हिस्सियों एमोरियों परिजियों हिबियों और यबूसियों के बीच में बस गये । तब वे उन की बेटियां ब्याह लेने और अपनी बेटियां उन के बेटों को ब्याह देने और उन के देवताओं की उपासना करने लगे ॥

(ओत्नीएल का चरित्र)

सो इस्राएलियों ने वह किया जो यहोवा के लेखे में बुरा है और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लगे । तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उस ने उन को अरन्नहरैम के राजा कूशत्रिशातैम के अधीन कर दिया सो इस्राएली आठ बरस लों कूशत्रिशातैम के अधीन रहे । तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उस ने इस्राएलियों के लिये कालेब के छोटे भाई ओक्नीएल नाम एक कनजी लुड़ानेहारों को ठहराया और उस ने उन को लुड़ाया । उस पर यहोवा का आत्मा आया और वह इस्राएलियों का न्यायी हो गया और लड़ने को निकला और यहोवा ने अराम के राजा



कृशाशिशतैम को उस के हाथ कर दिया और वह  
११ कृशाशिशतैम पर प्रबल हुआ । तब चालीस बरस लो  
देश को शांति रही और कनजी ओबीएल मर गया ॥

(एहूद का चरित्र)

१२ तब इस्राएली फिर वह करने लगे जो यहोवा के  
लेखे में बुरा है और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन  
को इस्राएल पर प्रबल किया क्योंकि उन्होंने ने वह किया  
१३ था जो यहोवा के लेखे में बुरा है । सो उस ने अम्मो-  
नियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया  
और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूरवाले  
१४ नगर को अपने वश कर लिया । सो इस्राएली अठारह  
बरस लो मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे ।  
१५ तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उस ने  
गैरा के पुत्र एहूद नाम एक बिन्यामीनी को उन का  
छुड़ानेहारा करके उहराया वह बैहत्था था । इस्राएलियों  
ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ  
१६ भेंट भेजी । एहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार  
बनवाई थी और उस को अपने वस्त्र के नीचे दहिनी जांघ  
१७ पर लटका लिया । तब वह उस भेंट को मोआब के राजा  
एग्लोन के पास जो बड़ा मोटा पुरुष था ले गया । जब वह  
१८ भेंट को दे चुका तब भेंट के लानेहारों को बिदा किया । पर  
१९ वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूरतों के पास से  
लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा कि हे राजा मुझे  
तुम्ह से एक भेद की बात कहनी है राजा ने कहा तनिक  
बाहर जाओ<sup>१</sup> तब जितने लोग उस के पास हाजिर थे सब  
२० बाहर चले गये । तब एहूद उस के पास गया वह तो  
अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था । एहूद  
ने कहा परमेश्वर की और से मुझे तुम्ह से एक बात  
२१ कहनी है सो वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ । तब एहूद  
ने अपना बायां हाथ बढ़ा अपनी दहिनी जांघ पर से  
२२ तलवार खींचकर उस की तोंद में छुसेइ दी, और फल  
के पीछे मूठ भी पैठ गई और फल चर्बी में घुसा रहा  
क्योंकि उस ने तलवार को उस की तोंद में से न निकाला  
२३ वरन वह उस की पिछाड़ी निकल गई । तब एहूद छुज्जे  
में निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींच  
२४ उस का बंद करके ताला लगा दिया । उस के निकल जाते  
ही राजा<sup>२</sup> के दास आये तो क्या देखते हैं कि अटारी  
के किवाड़ों में ताला लगा है सो वे बोले निश्चय वह  
२५ हवादार कोठरी में लघुशंका करता होगा । जब वे परखते  
परखते रह गये तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़

(१) मूल में चुप रहो । (२) मूल में उस ।

नहीं खोलता कुंजी लेकर उन्हें खोला तो क्या देखा कि  
हमारा स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है । जब तक वे २६  
विलम्ब करते रहे तब तक वह भाग गया और खुदी हुई  
मूरतों की परती और होकर सीरा में जा बचा । वहां २७  
पहुंचकर उस ने एप्रैम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फुंका  
तब इस्राएली उस के संग होकर पहाड़ी देश से उस के  
पीछे पीछे नीचे गये । और उस ने उन से कहा मेरे पीछे २८  
पीछे चले आओ क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी  
शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है सो उन्होंने ने उस  
के पीछे पीछे जाके यर्दन के घाट को जो मोआब देश की  
और है ले लिया और किसी को उत्तरने न दिया । उस २९  
समय उन्होंने ने कोई दस हजार मोआबियों को मार डाला  
जो सब के सब दृष्टपुष्ट और शूरवीर थे उन में से एक भी  
न बचा । सो उस समय मोआब इस्राएल के हाथ तले ३०  
दब गया तब अस्सी बरस लो देश को शान्ति रही ॥

उस के पीछे अनात का पुत्र शमगर हुआ उस ने ३१  
छः सौ पलिशती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला  
सो वह भी इस्राएल का छुड़ानेहारा हुआ ॥

(डबोरा और बाराक का चरित्र)

४. जब एहूद मर गया तब इस्राएली फिर

वह करने लगे जो यहोवा के लेखे में  
बुरा है । सो यहोवा ने उन को हासोर में विराजनेहार २  
कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया जिस का  
सेनापति सीसरा था जो अन्यजातियों की हरोशेत का ३  
निवासी था । तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी  
क्योंकि सीसरा के पास लोहे के नौ सौ रथ थे और वह इस्रा-  
एलियों पर बीस बरस लो बड़ा अन्धेर करता रहा ॥

उस समय लप्पीदेत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी ४  
इस्राएलियों का न्याय करती थी । वह एप्रैम के पहाड़ी ५  
देश में रामा और बेतेल के बीच दबोरा के खजूर के तले  
बैठा करती थी और इस्राएली उस के पास न्याय के लिये  
जाया करते थे । उस ने अबीनोअम के पुत्र बाराक को ६  
केदेश नताली में से बुलवाकर कहा क्या इस्राएल के  
परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर  
ताबोर पहाड़ पर चढ़<sup>३</sup> और नतालियों और जबूलुनियों  
में के दस हजार पुरुषों को संग ले जा । तब मैं याबीन के ७  
सेनापति सीसरा को रथों और मीडभाड समेत कीशान  
नदी लो तेरी ओर खींच ले जाऊंगा और उस को तेरे  
हाथ में कर दूंगा । बाराक ने उस से कहा जो तू मेरे संग ८  
चले तो मैं जाऊंगा नहीं तो न जाऊंगा । उस ने कहा ९

(२) मूल में खींच ।

निःसन्देह मैं तेरे संग चलूंगी तौमी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बढ़ाई न होगी क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा । तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई । तब बाराक ने जबूलून और नसाली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उस के पीछे दस हजार पुरुष चढ़ गये और दबोरा उस के संग चढ़ गई । हेबेर नाम केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश थे अपने को अलग करके केदेश के पास के सानकीम में के बाजवृक्ष लों जाकर अपना डेरा वहीं डाला था । जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सीसरा ने अपने सब रथ जो लोहे के नौ सौ रथ थे और अपने संग की सारी सेना को अन्य-जातियों के हरोशेत से कीशोन नदी पर बुलवाया । तब दबोरा ने बाराक से कहा उठ क्योंकि आज वह दिन है जिस में यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है । सो बाराक और उस के पीछे पीछे दस हजार पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े । तब यहोवा ने सारे रथों बरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के साम्हने ध्वरा दिया और सीसरा रथ पर से उतरके पांव पांव भाग चला । और बाराक ने अन्यजातियों के हरोशेत लों रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सीसरा की सारी सेना नाश की गई एक भी बचा न रहा ॥

१७ पर सीसरा पांव पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया क्योंकि हासोर के राजा याबान और हेबेर केनी के बीच मेल था । तब याएल सीसरा को भेंट के लिये निकलकर उस से कहने लगी हे मेरे प्रभु आ मेरे पास आ और न डर सो वह उस के पास डेरे में गया और उस ने उस के ऊपर कंबल डाल दिया । तब सीसरा ने उस से कहा मुझे प्यास लगी है सो मुझे थोड़ा पानी पिला सो उस ने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उस को ओढ़ा दिया । तब उस ने उस से कहा डेरे के द्वार पर खड़ी रह और यदि कोई आकर तुझ से पूछे कि यहां कोई पुरुष है तब कहना कोई नहीं । पीछे हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी और अपने हाथ में एक हथौड़ा ले दबे पांव उस के पास जाकर खूंटी को उस की कनपटी में ऐसा गाड़ दिया कि खूंटी भूमि में धंस गई वह तो थका था और उस को भारों नींद लग गई थी सो वह मर गया । जब बाराक सीसरा का पीछा करता था तब याएल ने उस की भेंट के लिये निकलकर कहा इधर आ जिस का तू खोजी है उस को मैं

तुम्हें दिखाऊंगी । सो वह उस के साथ गया तो क्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उस की कनपटी में गड़ी है । सो परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों से दबवा दिया । और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गये यहां लों कि उन्हें ने कनान के राजा याबीन का नाश कर डाला ॥

(दबोरा का गीत)

५. उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया कि ।  
 इस्राएल में के अगुवों ने अगुवाई जो की और प्रजा अपनी ही इच्छा से जो भरती हुई थी इस से यहोवा को धन्य कहे ॥  
 हे राजाओ सुनो हे अधिपतियों कान लगाओ मैं आप यहोवा के लिये गीत गाऊंगी  
 इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी ॥  
 हे यहोवा जब तू सेईर से निकल चला जब तू ने एदोम के देश से पयान किया तब पृथिवी डोल उठी और आकाश टपकने लगा बादल से भी जल टपकने लगा ॥  
 यहोवा के प्रताप से पहाड़ इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सैनै पिपलकर बहने लगा ॥  
 अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और याएल के दिनों में सड़कें सुनी पड़ी थीं और बटोही पगदंडियों से चलते थे ॥  
 जब लों मैं दबोरा न उठी जब लों मैं इस्राएल में माता होकर न उठी तब लों गांव सूने पड़े थे ॥  
 नये नये देवता माने गये—  
 उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी क्या चालीस हजार इस्राएलियों में भी डाल वा बछीं कहीं देखने में आती थी ॥  
 मेरा मन इस्राएल के हाकिमों की ओर लगा है जो प्रजा के बीच अपनी ही इच्छा से भरती हुए यहोवा को धन्य कहे ॥  
 हे उजली गदहियों पर चढ़नेहारे हे फशों पर बिराजनेहारे हे मार्ग पर पैदल चलनेहारे ध्यान रखलो ॥  
 पनघटों के आस पास धनुधारियों की बात के कारण

(१) वा इस्राएलियों में कोई प्रधान न रहा ।

- वहाँ यहोवा के धर्ममय कामों का  
इस्त्राएल के दिहातियों के लिये उस के धर्ममय  
कामों का बखाना जाता है  
उस समय यहोवा की प्रजा के लोग पाटकों के  
पास गये ॥
- १२ जाग जाग हे दबोरा  
जाग जाग गीत सुना  
हे बाराक उठ हे अमीनोअम के पुत्र अग्ने  
बंधुओं को बंधुआई में ले चल ॥
- १३ उम समय थोड़े से? रईस प्रजा समेत उतर पड़े  
यहोवा शूरवीरों के बिरुद्ध मेरे हित उतर  
आया ॥
- १४ एप्रैम में से वे आये जिन का जड़ अमालेक  
में है  
हे पिन्थामीन, तेरे पीछे तेरे टलों में  
माकीर में से हाकिम और जबूलून में से सेनापति  
का दण्ड लिये हुए उतर ॥
- १५ और इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग  
हुए  
जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी था  
उस के पीछे लगे हुए वे तराई में झपटे गये  
रूबेन की नदियों के पास  
बड़े बड़े काम मन में ठाने गये ॥
- १६ तु चरबाहोर का सीटी बजाना सुनने को  
मेइशालों के बीच क्यों बैठा रहा  
रूबेन की नदियों के पास  
बड़े बड़े काम सोचे गये ॥
- १७ गिलाद बर्दन पार रह गयो  
और दान क्यों अहाजों में रहा  
आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा  
और उस के कालो के पास रह गया ॥
- १८ जबूलून अपने प्राय पर खेलनेहारे लोग  
ठहरे  
नसाली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही  
ठहरा
- १९ राजा आकर लड़े  
उस समय कनान के राजा  
मगिहो के सेतों के पास तानाक में लड़े  
पर खरबे का कुछ लाभ न पाया ॥
- २० आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई

(१) मूल में प्रजा के बच्चे हुए । (२) वा संग ।

(३) मूल में भेद बकरियों के भुरखों ।

- ताराश्रां ने अपने अपने मंडल से सीसरा से  
लड़ाई की ॥  
कीशोन नदी ने उन को बहा दिया  
उस प्राचीन नदी कीशोन नदी ने यह फिन्ना २१  
हे मन हियाव बंधे आगे बढ़ ॥  
उस समय थोड़े अपने खुरों से टापने लगे २२  
उन के बलवन्तों के कूदने से यह हुआ ॥  
यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को साप दो २३  
उस के निगसियों को भारी साप दो  
क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को  
शूरवीरों के बिरुद्ध यहोवा की सहायता करने  
को न आये  
सब स्त्रियों में से केनी हेबेर की स्त्री २४  
याएल धन्य ठहरेगी  
डेरे में रहनेहारी सब स्त्रियों में से वह धन्य  
ठहरेगी ॥  
सीसरा ने पानी मांगा उस ने दूध दिया २५  
रईसों के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई ॥  
उस ने अपना हाथ खंडी की और २६  
अपना दहिना हाथ बढ़ाई के हथोंडे की और  
बढ़ाया  
और हथोंडे से सीसरा को मारा उस के सिर को  
फोड़ डाला  
और उस की कनपटी को वागपार छेद दिया ॥  
उस स्त्री के पांवों पर वह भुका वह गिरा वह पड़ा २७  
रहा  
उस स्त्री के पांवों पर वह भुका वह गिरा जहां  
भुका वहीं मरा पड़ा रहा ॥  
खिड़की में से एक स्त्री भाककर चिल्लाई २८  
सीसरा की माता ने भिलमिली की ओट से पुकारा कि  
उस के रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी  
उस के रथों के पहियों को अरेर क्यों हुई है ॥  
उस की बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे २९  
उत्तर दिया  
बरन उस ने अपने आप को यों उत्तर दिया कि  
क्या उन्होंने ने लूट पाकर बांट नहीं ली ३०  
क्या एक एक पुरुष को एक एक बरन दो दो  
कुंवारियां  
और सीसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट  
बरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट ।  
और लूटे हुआ के गले में दोनां और बूटे काढ़े  
हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले ॥

३२ हे यहोवा तेरे सारे शत्रु ऐसे ही नाश हो जाएं पर उस के प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हों ॥  
फिर देश को चालीस बरस लों शान्ति रही ॥  
(गिदोन का चरित्र)

६. तब इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा के लेखे में बुरा है सो यहोवा ने उन्हें

- २ मिद्यानियों के वश में सात बरस कर रक्खा । और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गये । मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों में के गहिर खड्डों और गुफाओं
- ३ और दुगों को अपने निवास बना लिये । और जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी
- ४ और पूरबी लोग उन के विरुद्ध चढ़ाई करके, अजा लों छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे और इस्राएलियों के लिये न तो कुड़ भोजनवस्तु छोड़ देते थे और न भेड़बकरी न गाय बैल न गदहा ।
- ५ क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिये हुए चढ़ाई करते और टिंडियों के समान बहुत आते थे और उन के ऊंट भी अनगिनत थे और वे देश के उजाड़ने को उस
- ६ में आया करते थे । और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़े तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी ॥
- ७ जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा
- ८ की दोहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा जिस ने उन से कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैं तुम को मिस्र में से ले आया और दासत्व के बर से निकाल ले आया ।
- ९ और मैं ने तुम को मिस्रियों के हाथ से बरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया और उन को तुम्हारे साम्हने से बरबस निकालकर उन का
- १० देश तुम्हें दे दिया । और मैं ने तुम से कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ एमीरी लोग जिन के देश में तुम रहते हो उन के देवताओं का भय न मानना पर तुम ने मेरी नहीं मानी ॥
- ११ फिर यहोवा का दूत आकर उस बांजवृक्ष के तले बैठ गया जो अग्र में अबीएजेरी योआश का था और उस का पुत्र गिदोन गेहूँ इसलिये एक दाखरस के कुयड में भाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे ।
- १२ उस को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा हे महाशूर
- १३ यहोवा तेरे संग है । गिदोन ने उस से कहा हे मेरे प्रभु बिनती सुन यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती और जितने आश्चर्यकर्मों का

वर्णन हमारे पुरखा वह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हम को मिस्र से छुड़ा नहीं लाया वे कहाँ रहे अब तो यहोवा ने हम को त्यागकर मिद्यानियों के हाथ कर दिया है । तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा क्या मैं ने तुम्हें नहीं भेजा । उस ने कहा हे मेरे प्रभु बिनती सुन मैं इस्राएल को क्योंकर छुड़ाऊँ देख मेरा कुल मनश्ये में सबसे कंगाल है फिर मैं अपने पिता के घराने में सब से छोटा हूँ । यहोवा ने उस से कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को । गिदोन ने उस से कहा यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इस का कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझ से बात करता है । जब लों मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे साम्हने न रखूँ तब लों यहां से न पधारना उस ने कहा मैं तेरे लौटने लों ठहरूँगा । तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार कीं तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रख बांजवृक्ष के तले उस के पास ले जाकर दिया । परमेश्वर के दूत ने उस से कहा मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चटान पर रख और जूस को उगडेल दे । सो उस ने ऐसा ही किया । तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छूआ और चटान से भाग निकली जिस से मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गईं तब यहोवा का दूत उस की दृष्टि से अन्तर्धान हो गया । जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था तब गिदोन कहने लगा हाय प्रभु यहोवा मैं ने तो यहोवा के दूत को साक्षात् देखा है । यहोवा ने उस से कहा तुम्हें शांति मिले मत डर तू न मरेगा । सो गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उस का नाम यहोवाशालोम<sup>१</sup> रक्खा वह आज के दिन लों अबीएजेरियों के अग्र में बनी है ॥

फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा अपने पिता का जवान बैल अर्थात् दूसरा सात बरस का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो अशोरा देवी उस के पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशोरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होमबलि चढ़ा । सो गिदोन ने अपने दस दास संग लेकर यहोवा के बचन के अनुसार

(१) अर्थात् यहोवा शान्ति [देनेवाला है]

किया पर आने पिता के बगने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका सो रात में २८ किया । बिहान को नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी और उस के पास की आशैरा कटी पड़ी और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी २९ पर चढ़ाया हुआ है । तब वे आपस में कहने लगे यह काम किस ने किया और पूछा। और दंड डाल करके वे कहने लगे कि यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है । ३० सो नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए क्योंकि उस ने बाल की वेदी को गिरा दिया और उस के पास की आशैरा ३१ को काट डाला है । योआश ने उन सभी से जो उस के साम्हने खड़े हुए थे कहा क्या तुम बाल के लिये वाद विवाद करोगे क्या तुम उसे बचाओगे जो कोई उस के लिये वाद विवाद करे सो मार डाला जाएगा बिहान लों ठहरे एहो तब लों यदि वह परमेश्वर हो तो जिस ने उस की वेदी गिराई उस से वह आप ही अपना वाद ३२ विवाद करे । सो उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरुबबाल रक्खा गया कि इस ने जो बाल की वेदी गिराई है सो इस पर बाल ही वाद विवाद करे ॥ ३३ इस के पीछे सब मिद्यानी और अमालेकी और पुरुषों इकट्ठे हुए और पार आकर यिजेरल की ३४ तराई में डेरे डाले । तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया २ और उस ने नरसिंगा फूँका तब अनीएजेरी उस ३५ के पीछे इकट्ठे हुए । फिर उस ने सारे मनश्शे के यहाँ दूत भेजे और वे भी उस के पीछे इकट्ठे हुए और उस ने आशैर जधूलून और नस्ताली के यहाँ भी दूत भेजे तब ३६ वे भी उस से मिलने को चले आये । तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल ३७ को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, तो सुन मैं एक मेड़ी का ऊन खलिहान में रक्खुंगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रहे तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे ३८ द्वारा छुड़ाएगा । और ऐसा ही हुआ सो जब उस ने बिहान को सवेरे उठ उस ऊन को दबाकर उस में से ३९ ओस निचोड़ी तब एक कटोरा भर गया । फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा कोप मुझ पर न भड़के मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूँ अर्थात् केवल ऊन ही सूखी रहे और ४० सारी भूमि पर ओस पड़े । उस रात को परमेश्वर ने

ऐसा ही किया अर्थात् केवल ऊन ही सूखी रही और सारी भूमि पर ओस पड़ी ॥

## ७. तब गिदोन जो यरुबबाल भी कहावता है

और सब लोग जो उस के संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किये और मिद्यानियों की छावनी उन की उत्तर और मारे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी ॥

तब यहोवा ने गिदोन से कहा जो लोग तेरे संग हैं २ सो इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उन के हाथ नहीं कर सकता नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारने लगेंगे कि मैं अपने ही भुजबल के द्वारा छूटा हूँ । ३ सो तू जाकर लोगों को यह प्रचार करके सुना कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए सो बाईस हजार लोग लौट गये और दस हजार रह गये ॥

फिर यहोवा ने गिदोन से कहा अब भी लोग ४ अधिक हैं उन्हें सोते के पास नीचे ले चले वहाँ मैं उन्हें तेरे लिये परखुंगा और जिस जिस के विषय मैं तुझ से कहूँ कि यह तेरे संग चले वह तेरे संग चले और जिस जिस के विषय मैं कहूँ कि यह तेरे संग न चले वह न चले । सो वह उन को सोते के पास नीचे ले गया तब ५ यहोवा ने गिदोन से कहा जितने कुत्ते की नाई जीभ से पाना चपड़ चपड़ करके पीएँ उन को अलग रख और वैसा ही उन्हें भी जो छुटने टेककर पीएँ । जिन्हों ने मुंह ६ में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पिया उन की तो गिनती तीन सी ठहरी और बाकी सब लोगों ने छुटने टेककर पानी पिया । तब यहोवा ने गिदोन से कहा इन तीन सी ७ चपड़ चपड़ करके पीनेहारों के द्वारा मैं तुम को छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और सब लोग अपने अपने स्थान को चले जाएँ । सो उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने नरसिंगे लिये और उस ने इस्राएल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया पर उन तीन सी पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा और मिद्यान की छावनी उस के नीचे तराई में पड़ी थी ॥

उसी रात को यहोवा ने उस से कहा उठ छावनी ९ पर चढ़ाई कर क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ । पर यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक पूरा १० को संग ले छावनी के पास जाकर सुन, कि वे क्या क्या ११ कह रहे हैं उस के पीछे तुम्हें उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव बंधेगा । सो वह अपने सेवक पूरा को संग ले उन हथियारबन्धों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया । मिद्यान और अमालेकी और सब १२

(१) अर्थात् बाल वाद विवाद करे ।

(२) मूल में आत्मा ने गिदोन को पहिचन लिया ।

- पूरबी लोग तो टिप्पियों के समान बहुत से तराई में पड़े थे और उन के ऊँट समुद्रतीर का बाणू के किनारों के समान
- १२ गिनती से बाहर थे । जब गिदोन वहाँ आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यों कह रहा था कि सुन मैं ने स्वप्न में क्या देखा है कि जो की एक रोटी छुड़कते छुड़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेर को ऐसा टकर मारा कि वह गिर गया और उस को ऐसा उलट
- १४ दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा । उस के संगी ने उत्तर दिया यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है ॥
- १५ उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दण्डवत् की और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा उठो यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया
- १६ है । तब उस ने उन तीन सौ पुरुषों के तीन गोल किये और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और छूछा
- १७ घड़ा और घड़ों के भीतर पलीते थे । फिर उस ने उन से कहा मुझे देखो और वैसा ही करो सुनो जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुँचूँ तब जैसा मैं करूँ वैसा ही तुम भी
- १८ करना । अर्थात् जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूँके तब तुम भी सारी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूँकना और यह कहना कि यहोवा के लिये और गिदोन के लिये ॥
- १९ बीचवाले पहर के आदि में ज्योंही पहरों की बदली हो गई थी त्योंही गिदोन अपने संग के सौओं पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूँक दिया
- २० और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला । तब तीनों गोलों ने नरसिंगे को फूँक दिया और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएँ हाथ में पलीता और दहिने हाथ में फूँकने की नरसिंगा लिये हुए यहोवा की तलवार गिदोन
- २१ की तलवार ऐसा पुकारने लगे । तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे तब सारी सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिह्ला चिह्लाकर उन्हें भगा दिया ।
- २२ और उन्हो ने तीनों सौ नरसिंगे फूँके और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उस के संगी पर और सारी सेना पर चला-वाई सो सेना के लोग सरैरा की और बेतशित्ता लौ और
- २३ तन्वत के पास के आबेलमहोला लौ भाग गये । तब इस्राएली पुरुष नसाली और अशौ और मनशौ के सारे देश से
- २४ इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े । और गिदोन ने एप्रैम के साथ पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिये कि मिद्यान के छूँकने को आओ और यर्दन नदी को बेतबारा

लौ उन से पहिले अपने वश कर लो । सो सब एप्रैमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यर्दन नदी को बेतबारा लौ अपने वश कर लिया । और उन्हों ने ओरेव और जेब नाम मिद्यान के २५ दो हाकिमों को पकड़ा और ओरेव को ओरेव नाम चटान पर और जेब को जेब नाम दाखरस के कुण्ड पर घात किया और वे मिद्यान के पीछे पड़े और ओरेव और जेब के सिर यर्दन के पार गिदोन के पास ले गये ।

### ८. तब एप्रैमी पुरुषों ने गिदोन से कहा तू ने

हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हम को नहीं बुलवाया सो वे उस से बड़ा भगड़ा मचाने लगे । उस ने २ उन से कहा तुम्हारे बराबर मैं ने अब क्या किया है क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सारी फसल से अच्छी नहीं । तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेव ३ और जेब नाम मिद्यान के हाकिमों को कर दिया सो तुम्हारे बराबर मैं क्या कर सका । जब उस ने यह बात कही तब उन का जी उस को और से ठंडा हो गया ॥

सो गिदोन और उस के संग के तीनों सौ पुरुष जो ४ थके मान्दे थे पर तीभी खदेड़ते रहे यर्दन के तीर आकर पार गये । तब उस ने सुक्कोत के लोगों से कहा मेरे पीछे ५ इन आनेहारों की रोटियाँ दो क्योंकि ये थके माँदे हैं और मैं मिद्यान के जेबह और सल्मुन्ना नाम राजाओं का पीछा किये जाता हूँ । सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया क्या ६ जेबह और सल्मुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दें । गिदोन ने कहा अब यहोवा जेबह और ७ सल्मुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस बात के कारण तुम को जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से ८ कूटूंगा । वहाँ से वह पनूएल को गया और वहाँ के लोगों ९ से ऐसी ही बात कही और पनूएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया । उस ने पनूएल के लोगों से कहा जब मैं कुशल से लौट आऊंगा तब इस गुम्मत को १० दा दूँगा ॥

जेबह और सल्मुन्ना तो कर्कोर में थे और उन के १० साथ कोई पंद्रह हजार पुरुषों की सेना थी क्योंकि पूरबियों की सारी सेना में से उतने ही रह गये थे और जो मारे गये थे वे एक लाख बीस हजार हथियारबन्ध ११ थे । सो गिदोन ने नोबह और योगवहा की पूरब ओर ११ डेरों में रहनेहारों के मार्ग से चढ़कर उस सेना को जो

(१) मूल में उन ।

- १२ निहर पड़ी थी मार लिया । और जब गोवा और सल्लुजा भागे तब उस ने उन का पीछा करके मिथानियों के उन दोनों अन्धों अर्थात् जेबह और सल्लुजा को पकड़ लिया ।
- १३ और सब सेना को डरा दिया । और योआश का पुत्र
- १४ गिदोन हेरेस नाम चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा, और सुकोत के एक बवान पुरुष को पकड़ कर उस से पूछा और उस ने सुकोत के सतहत्तरो हाकिमी और पुरनियों के पते
- १५ लिखवाये । तब वह सुकोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा जेबह और सल्लुजा को देखो जिन के विषय तुम ने वह कहकर मुझे चिढ़ाया था कि क्या जेबह और सल्लुजा अभी तेरे हाथ में हैं कि हम तेरे थके मांसे जनो को रोटी
- १६ दें । तब उस ने उस नगर के पुरनियों को पकड़ा और जंगल के अन्धों और बिन्धू पेड़ लेकर सुकोत के पुरुषों को कुछ
- १७ सिखाया । और उस ने पनूएल के गुम्मत को ढा दिया और
- १८ उस नगर के मनुष्यों को घात किया । फिर उस ने जेबह और सल्लुजा से पूछा जो मनुष्य तुम ने ताबोर पर घात किये थे वे कैसे थे उन्होने उत्तर दिया जैसा तू वैसे ही वे भी थे
- १९ अर्थात् एक एक का रूप राजकुमार का सा था । उस ने कहा वे तो मेरे भाई बरन मेरे सहोदर भाई थे यहोवा के जीवन की सोह यद्द तूम ने उन को जीते छोड़ा होता
- २० तो मैं तुम को घात न करता । तब उस ने अपने जेठे पुत्र येतेर से कहा उठ कर इन्हें घात कर पर जवान ने अपनी तलवार न खींची क्योंकि वह तब तक लड़का ही था इस-
- २१ लिये वह डर गया । तब जेबह और सल्लुजा ने कहा तू उठकर हम पर प्रहार कर क्योंकि जैसा पुरुष ही वैसा ही उस का पौरुष भी होगा । सो गिदोन ने उठकर जेबह और सल्लुजा को घात किया और उन के अँटों के गलों के चन्द्रहारों को ले लिया ॥
- २२ तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा तू हमारे ऊपर प्रभुता कर तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे
- २३ क्योंकि तू ने हम को यिष्मन के हाथ से छुड़ाया है । गिदोन ने उन से कहा मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूँगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करे यहोवा ही तुम पर प्रभुता
- २४ करेगा । फिर गिदोन ने उन से कहा मैं तुम से कुछ मांगता हूँ अर्थात् तुम मुझ को अपनी अपनी लूट में के नत्थ दो । वे जो इस्राएली थे इस कारण उन के नत्थ
- २५ सोने के थे । उन्होने कहा निश्चय हम देंगे सो उन्होने कपड़ा बिछा कर उस में अपनी अपनी लूट में के नत्थ डाल
- २६ दिये । जो सोने के नत्थ उस ने मांग लिये उन का तौल

(१) वा सूर्य उदय न होने पाया कि योआश का पुत्र गिदोन लड़ाई से लौटा ।

एक हजार सात सौ शेकेल हुआ और उन को छोड़ चन्द्रहार कुमके और बैगनी रंग के बख जो मिथानियों के राका पहिने थे और उन के अँटों के गलों के कठे थे । उन का गिदोन ने एक एपोद बनवा कर अपने ओप्रा नाम नगर में रक्खा और सब इस्राएल वहां व्यभिचारिन की नाई उस के पीछे हो लिया और वह गिदोन और उस के धराने के लिये फन्दा ठहरा । सो मिथान इस्राएलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया और गिदोन के जीवन भर अर्थात् चालीस बरस लों देश चैन से रहा ॥

योआश का पुत्र यरुबाल तो जाकर अपने घर में रहने लगा । और गिदोन के सत्तर बेटे उत्पन्न हुए क्योंकि उस के बहुत स्त्रियां थीं । और उस की जो एक सुरैतिन शकेम में रहती थी वह भी उस का जन्माया एक पुत्र जनी और गिदोन ने उस का नाम अबीमेलोक रक्खा । निदान योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया और अबीएजेरियों के ओप्रा नाम गांव में उस के पिता योआश की कबर में उस को मिट्टी दी गई ॥

गिदोन के मरते ही इस्राएली फिर गये और व्यभिचारिन की नाई बाल देवताओं के पीछे हो लिये और बाल-बरीत को अपना देवता मान लिया । और इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को जिस ने उन को चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था स्मरण न रक्खा । और न उन्होने यरुबाल अर्थात् गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उस ने इस्राएलियों के साथ की थी उस के धराने को प्रीति दिखाई ॥

(अबीमेलोक का चरित्र)

## ६. यरुबाल का पुत्र अबीमेलोक शकेम को

अपने मामाओं के पास जाकर उन से और अपने नाना के सारे धराने से यों कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो कि तुम्हारे लिये क्या भला है क्या यह कि यरुबाल के सत्तरों पुत्र तुम पर प्रभुता करें वा यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे और यह भी स्मरण रक्खो कि मैं तुम्हारा ही हाड़ मांस हूँ । सो उस के मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कहीं और उन्होने यह सोच कर कि अबीमेलोक तो हमारा भाई है अपना मन उस के पीछे लगा दिया । तब उन्होने बालबरीत के मन्दिर में से सत्तर टुकड़े रूपे उस को दिये और उन्हें लगा कर अबीमेलोक ने हलके हलके और लुब्धे जन रख लिये जो उस के पीछे हो लिये । तब उस ने ओप्रा में

अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरुबाल के सत्तर पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया । पर यरुबाल का योताम नाम लहुरा पुत्र छिपकर बच गया ॥

६ तब शकेम के सब मनुष्यों और बेतमिल्लो के सब लोगों ने इकट्ठे होकर शकेम में के खंभे के पासवाले बाज-  
७ वृक्ष के पास अबीमेलोक को राजा किया । इस का समाचार सुनकर योताम गरिज्जीम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊँचे स्वर से पुकारके कहने लगा हे शकेम के मनुष्यो मेरी सुनो इसलिये कि परमे-  
८ श्वर भी तुम्हारी सुने । सब वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले तो उन्होंने जलपाई के वृक्ष से कहा तू हम पर राज्य कर । जलपाई के वृक्ष ने कहा क्या मैं अपनी उस चिकनाइट को छोड़कर जिस से लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को  
१० चलूँ । तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा तू आकर हम पर राज्य कर । अंजीर के वृक्ष ने उन से कहा क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूँ ।  
१२ फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा तू आकर हम पर राज्य कर । दाखलता ने उन से कहा क्या मैं अपने नये मधु को छोड़ जिस से परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आनन्द होता है वृक्षों की अधिकारिन होकर इधर उधर डोलने को चलूँ । तब सब वृक्षों ने भड़बेड़ी से कहा तू आकर हम पर राज्य कर । भड़बेड़ी ने उन वृक्षों से कहा यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाँह में शरण लो और नहीं तो भड़बेड़ी से आग निकलेगी जिस से लवानोन के देवदारु भी भस्म हो जाएंगे । सो अब यदि तुम ने सच्चाई और खराई से अबीमेलोक को राजा किया और यरुबाल और उस के घराने से भलाई की और उस से उस के काम के योग्य बर्ताव किया हो तो भला । मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेल कर तुम को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया था । पर तुम ने अब मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर उस के सत्तरो पुत्र एक ही पत्थर पर घात किये और उस की लौंडी के पुत्र अबीमेलोक को इसलिये शकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा ठहराया है कि वह तुम्हारा भाई है । सो यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरुबाल और उस के घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो तो अबीमेलोक के कारण आनन्द करो और वह भी तुम्हारे कारण आनन्द करे । और नहीं तो अबीमेलोक से ऐसी आग निकले जिस

से शकेम के मनुष्य और बेतमिल्लो भस्म हो जाएँ और शकेम के मनुष्यों और बेतमिल्लो से ऐसी आग निकले जिस से अबीमेलोक भस्म हो जाए । तब योताम भागा और अपने भाई अबीमेलोक के डर के मारे बेर को जाकर वहीँ रहने लगा ॥

और अबीमेलोक इस्राएल के ऊपर तीन बरस हाकिम रहा । तब परमेश्वर ने अबीमेलोक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरा आत्मा भेज दिया सो शकेम के मनुष्य अबीमेलोक का विश्वासघात करने लगे, जिस से यरुबाल के सत्तरो पुत्रों पर किये हुए उपद्रव का फल भोगा जाए<sup>१</sup> और उन का खून उन के घात करनेहारे उन के भाई अबीमेलोक को और उस के अपने भाइयों के घात करने में उस की सहायता करनेहारे शकेम के मनुष्यों को भी लगे । सो शकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उस के लिये घातुओं को बैठाया जो उस मार्ग से सब आने जानेहारों को लूटते थे और इस का समाचार अबीमेलोक को मिला ॥

तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शकेम में आया और शकेम के मनुष्यों ने उस का भरोसा किया । और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े और उन का रस रौन्दा और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मन्दिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलोक को कोसने लगे । तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा अबीमेलोक कौन है शकेम कौन है कि हम उस के अधीन रहें क्या वह यरुबाल का पुत्र नहीं क्या जबूल उस का नाइब नहीं शकेम के पिता हमोर के लोगों के तो अधीन हो पर हम उस के अधीन क्यों रहें । और यह प्रजा मेरे बश में होती तो क्या ही भला होता तब तो मैं अबीमेलोक को दूर करता फिर उस ने अबीमेलोक से कहा अपनी सेना की गिनती बढ़ा कर निकल आ । एबेद के पुत्र गाल की ये बातें सुन कर नगर के हाकिम जबूल का कोप भड़क उठा । और उस ने अबीमेलोक के पास छिपकेर दूतों से कहला भेजा कि एबेद का पुत्र गाल और उस के भाई शकेम में आके नगरवालों को तेरा विरोध करने को उसकाते हैं । सो अपने संगवालों समेत रात को उठ कर मैदान में घात लगा । फिर बिहान को सवेरे सूर्य के निकलते ही उठ कर इस नगर पर चढ़ाई करना और जब वह अपने संगवालों समेत तेरा साम्हना करने को निकले तब जो कुछ तुम्हें से बन पड़े वही उस से करना ॥

तब अबीमेलोक और उस के संग के सब लोग रात

(१) मूल में उपद्रव आए ।

(२) मूल में चतुराई से ।



३५ का उठ चार गोल बांध कर शकेम के विरुद्ध घात में बैठ गये । और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ तब अबीमेलोक और उस के ३६ संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए । उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा देख पहाड़ों की चाटियों पर से लोग उतरे आते हैं जबूल ने उस से कहा वह तो पहाड़ों की छाया है जो तुम्हें मनुष्यों के समान ३७ देख पड़ती है । गाल ने फिर कहा देख लोग देश के बीचोंबीच होकर उतरे आते और एक गोल मोननीम ३८ नाम बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है । जबूल ने उस से कहा तैरी यह बात कहा रही कि अबीमेलोक कौन है कि हम उस के अधीन रहें ये तो वे ही लोग हैं जिन को तू ने निकलना जाना था सो अब निकलकर उन से ३९ लड़ । सो गाल शकेम के पुरुषों का अगुआ हो बाहर ४० निकलकर अबीमेलोक से लड़ा । और अबीमेलोक ने उस को खदेड़ा और वह अबीमेलोक के साम्हने से भागा और नगर के फाटक लौं पहुंचते पहुंचते बहुतेरे घायल ४१ होकर गिरे । तब अबीमेलोक अरूमा में रहने लगा और जबूल ने गाल और उस के भाइयों को निकाल दिया ४२ और शकेम में न रहने दिया । दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गये और यह अबीमेलोक को बताया गया । ४३ और उस ने अपने जनों के तीन गोल बांधकर मैदान में घात लगाई और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया । ४४ अबीमेलोक अपने सँग के गोलों समेत आगे दौड़ कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया और दो गोलीं ने उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार ४५ डाला । उसी दिन अबीमेलोक ने नगर से दिन भर लड़कर उस को लौ लिया और उस में के लोगों का घात करके नगर की ढा दिया और उस पर लोन छितरवा दिया ॥ ४६ यह सुनकर शकेम के गुम्मट के सब रहनेहारे ४७ एलबरीत के मन्दिर के गढ़ में जा घुसे । जब अबीमेलोक को यह समाचार मिला कि शकेम के गुम्मट के सब ४८ मनुष्य इकट्ठे हुए हैं, तब वह अपने सब सौगियों समेत सलमोन नाम पहाड़ पर चढ़ गया और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी और उसे उठा कर अपने कंधे पर रख ली और अपने संगवालों से कहा कि जैसा तुम ने मुझे करते देखा वैसा ही तुम भी भट करो । ४९ सो उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली और अबीमेलोक के पीछे हो उन को गढ़ पर डालकर गढ़

(१) मूल में उन के ऊपर गढ़ ।

में आग लगाई तो शकेम के गुम्मट के सब लीपुरुष जो अटकल एक हजार थे मर गये ॥

तब अबीमेलोक ने तेबेस को जा उस के साम्हने डेरे ५० खड़े करके उस को लौ लिया । पर उस नगर के बीच ५१ एक दृढ़ गुम्मट था सो म्या ली कथा पुरुष नगर के सब लोग भागकर उस में घुसे और उसे बन्द करके गुम्मट को छत पर चढ़ गये । तब अबीमेलोक गुम्मट के निकट ५२ जाकर उस के विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार लौ गया कि उस में आग लगाए । तब किसी ली ने चकी ५३ का ऊपरला पाट अबीमेलोक के सिर पर डाल दिया और उस की खोपड़ी फट गई । सो उस ने भट अपने ५४ हथियारों के दोनेहारे जवान को बुलाकर कहा अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल ऐसा न हों कि लोग मेरे विषय कहने पाएँ कि उस को एक ली ने घात किया सो उस के जवान ने तलवार भोक दी और वह मर गया । यह देखकर कि अबीमेलोक मर गया है इस्त्राएली ५५ अपने अपने स्थान को चले गये । सो जो दुष्ट काम ५६ अबीमेलोक ने अपने सत्तरो भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था उस को परमेश्वर ने उस के सिर पर लौटा दिया । और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट ५७ काम परमेश्वर ने उन के सिर पर लौटा दिये और यरुबाल के पुत्र योताम का स्त्राप उन पर घट गया ॥

( तोला और यार्ड के चरित्र )

## १०. अबीमेलोक के पीछे इस्त्राएल के

छुड़ाने के लिये तोला नाम एक इस्त्राकारी उठा वह दोषो का पोता और पूआ का पुत्र था और एप्रैम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था । वह तेईस बरस लौं इस्त्राएल का २ न्याय करता रहा तब मर गया और उस को शामीर में मिट्टी दी गई ॥

उस के पीछे गिलादी यार्डर उठा वह बाईस बरस लौं इस्त्राएल का न्याय करता रहा । और उस के तीस ४ पुत्र थे जो गदहियों के तीस बच्चों पर सवार हुआ करते थे और उन के तीस नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज लौं हबेत्त्याईर<sup>२</sup> कहलाते हैं । और यार्डर मर ५ गया और उस को कामोन में मिट्टी दी गई ॥

तब इस्त्राएली फिर वह करने लगे जो यहोवा के लेखे में बुरा है अर्थात् बाल देवताओं अश्वतोरत देवियों और आराम सीदोन मोआब अम्मोनियों और

(२) अर्थात् यार्डर की बस्तियां ।

- पलिशित्यों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उस की उपासना न की ।  
 ७ सो यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़का और उस ने उन्हें पलिशित्यों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया ।  
 ८ और उस बरस ये इस्राएलियों की पेरते और पीसते रहे बरन यर्दन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहनेहारे सब इस्राएलियों पर अठारह बरस लौं अंधेर करते रहे ।  
 ९ अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रैम के घराने से लड़ने को यर्दन पार जाते थे यहां लौं कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ा । तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी कि हम ने जो अपने परमेश्वर को त्यागकर बाल देवताओं की उपासना की है यह हम ने तेरे विरुद्ध पाप किया है । यहोवा ने इस्राएलियों से कहा क्या मैं ने तुम को मिस्त्रियों एमोरियों अम्मोनियों और पलिशित्यों से न छुड़ाया था । फिर जब सीदोनी और अमालैकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुम ने मेरी दोहाई दी तब मैं ने तुम को उन के हाथ से भी छुड़ाया । तौभी तुम ने मुझे त्यागकर पराये देवताओं की उपासना की है इसलिये मैं फिर तुम को न छुड़ाऊंगा । जाओ अपने माने हुए देवताओं की दोहाई दो तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं । इस्राएलियों ने यहोवा से कहा हम ने पाप किया है सो जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हम से कर पर अभी हमें छुड़ा । तब वे बिराने देवताओं को अपने बीच से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ ॥  
 १७ तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्त्रा में अपने डेरे डाले । तब गिलाद में के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे कौन पुरुष अम्मोनियों से लड़ने का आरंभ करेगा वह गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा ॥

**११. यितह** नाम गिलादी बड़ा वीर था और वह वेश्या का बेटा था और

- १ गिलाद ने यितह को जन्माया था । गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गये तब यितह को यह कहकर निकाल दिया कि तू जो बिरानी का बेटा है इस कारण हमारे पिता के घराने में भाग न पाएगा ।  
 २ सो यितह अपने माइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और यितह के पास हलके हलके मनुष्य इकट्ठे हुए और उस के संग बाहर जाते थे ॥  
 ४ कितने दिन पीछे अम्मोनी इस्राएल से लड़ने

लगे । जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे तब गिलाद के पुरनिये यितह को तोब देश से ले आने को गये और यितह से कहा चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सकें । यितह ने गिलाद के पुरनियों से कहा क्या तुम ने मुझ से बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आये हो । गिलाद के पुरनियों ने यितह से कहा इस कारण हम अब तेरी ओर फिर हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा । यितह ने गिलाद के पुरनियों से पूछा यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे तो क्यों मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा । गिलाद के पुरनियों ने यितह से कहा निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे यहोवा हमारे तैरे बीच इन वचन का सुननेवाला है । सो यितह गिलाद के पुरनियों के संग चला और लोगों ने उस को अपने ऊपर मुख्य और प्रधान ठहराया और यितह ने अपनी सारी बातें मिस्त्रा में यहोवा के सुनते कह दीं ॥

तब यितह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि तुम्हें मुझ से क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने को आया है । अम्मोनियों के राजा ने यितह के दूतों से कहा कारण यह है कि जब इस्राएली मिस्त्रा से आये तब अर्नोन से यब्बोक और यर्दन लौं जो मेरा देश था उस को उन्होंने छीन लिया सो अब उंच को बिना भगाड़ा किये फेर दे । तब यितह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने का दूत भेजे कि, यितह तुझ से यों कहता है कि इस्राएल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का । बरन जब वे मिस्त्रा से निकले और इस्राएल जंगल में हाते हुए लाल समुद्र तक चला और कादेश को आया, तब इस्राएल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मुझे अपने देश में होकर जाने दे और एदोम के राजा ने उन की न मानी उसी रीति उस ने मोआब के राजा से भी कहला भेजा और उस ने भी न माना सो इस्राएल कादेश में रह गया । तब उस ने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब देश की पूरब ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले और मोआब के सिवाने के भीतर न गया क्योंकि मोआब का सिवाना अर्नोन था । फिर इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास जो हेरथोन का राजा था दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में

२० होकर हमारे स्थान को जाने दे । पर सीहोन ने इस्राएल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में होकर जाने दे बरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठी कर अपने  
 २१ डेरे यहस में खड़े करके इस्राएल से लड़ा । और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उन को मार लिया सो इस्राएल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे  
 २२ देश का अधिकारी हो गया । अर्थात् वह अर्नोन से यम्बोक लों और जंगल से ले यर्दन लों एमोरियों के २३ सारे देश का अधिकारी हो गया । सो अब इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इस्राएली प्रजा के साम्हने से एमोरियों को उन के देश से निकाल दिया फिर क्या तू  
 २४ उस का अधिकारी होने पाएगा । क्या तू उस का अधिकारी न होगा जिस का तेरा कर्मोश देवता तुम्हें अधिकारी कर दे इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साम्हने से निकाले उन के देश के अधिकारी  
 २५ हम होंगे । फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है क्या उस ने कभी इस्राएलियों से कुछ भी भगाड़ा किया क्या वह उन से कभी लड़ा ।  
 २६ जब कि इस्राएल हेरबोन और उस के गांवों में और अरोएर और उस के गांवों में और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में तीन सौ बरस से बसा है तो इतने दिनों  
 २७ में तुम लोगों ने उस को क्या नहीं छुड़ा लिया । मैं ने तेरा अपराध नहीं किया तू ही मुझ से लड़ाई करके बुरा व्यवहार करता है सो यहोवा जो न्यायी है वह इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच आज न्याय करे ।  
 २८ तोभी अम्मोनियों के राजा ने यितह की ये बातें न मानीं जिन को उस ने कहला भेजा था ॥  
 २९ तब यहोवा का आत्मा यितह पर आ गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्रे में आया और गिलाद के मिस्रे से होकर अम्मोनियों की  
 ३० ओर चला । और यितह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निःसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ कर  
 ३१ दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों से लौट आऊं तब जो कोई मेरी भेंट के लिये मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होमबलि करके  
 ३२ चढाऊंगा । तब यितह अम्मोनियों से लड़ने को उन की ओर गया और यहोवा ने उन को उस के हाथ में  
 ३३ कर दिया । और वह अरोएर से ले मिस्रीत लों बरन आबेलकरामीम लों जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इस्राएलियों से दब गये ॥

जब यितह मिस्रा को अपने घर आया तब उस की बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उस की भेंट के लिये निकल आई वह उस की एकलौती थी उस को छोड़ उस के न बेटा था न बेटी । उस को देखते ही उस ने अपने कपड़े फाड़कर कहा हाय मेरी बेटी तू ने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देनेवालों में की हो गई है क्योंकि मैं ने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता । उस ने उस से कहा हे मेरे पिता तू ने जो यहोवा को वचन दिया है सो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझ से बर्ताव कर किस लिये कि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है । फिर उस ने अपने पिता से कहा मेरे लिये यह किया जाए कि दो महीने तक मुझे छोड़े रह कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारपन पर गैती रहूं । उस ने कहा जा सो उस ने उसे दो महीने की छुट्टी दी सो वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारपन पर गैती रही । दो महीने के बीते पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उस ने उस के विषय अपनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था । सो इस्राएलियों में यह रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां बरस बरस यितह गिलादी की बेटी का यश गाने का बरस दिन में चार दिन जाया करती थीं ॥

## १२. तब एप्रैमी पुरुष इकट्ठे हो सापोन

के जाकर यितह से कहने लगे कि जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों न बुलवाया हम तेरा घर तुझ समेत जला देंगे । यितह ने उन से कहा मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा भगाड़ा हुआ था और जब मैं ने तुम से सहायता मांगी तब तुम ने मुझे उन के हाथ से नहीं बचाया । सो यह देखकर कि ये मुझे नहीं बचाते मैं अपना प्राण हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला और यहोवा ने उन को मेरे हाथ में कर दिया फिर तुम अब मुझ से लड़ने को क्यों चढ़ आये हो । तब यितह गिलाद के सब पुरुषों को बटोरके एप्रैम से लड़ा और एप्रैम जो कहता था कि हे गिलादियो तुम तो एप्रैम और मनश्शे के बीच रहनेवाले एप्रैमियों के भगोड़े हो सो गिलादियों ने उन को मार लिया । और गिलादियों ने यर्दन का घाट उन में पहिले अपने वश में कर लिया और जब कोई एप्रैमी भगोड़ा कहता कि मुझे पार जाने

(१) मूल में तू ने मुझे बहुत भुक्तया है ।

दो तब गिलाद के पुरुष उस से पूछते थे क्या तू एप्रैमी<sup>१</sup> है और यदि वह कहता नहीं, तो वे उस से कहते अम्बुआ सिम्बोलेत कह और वह कहता सिम्बोलेत क्योंकि उस से वह ठीक बोलता न जाता था तब वे उस को पकड़कर यर्दन के घाट पर मार डालते थे सो उस समय बधाहीस हजार एप्रैमी मारे गये ॥

७ यिसह छः बरस लों इस्राएल का न्याय करता रहा तब यिसह गिलादी मर गया और उस को गिलाद के किसी नगर में<sup>२</sup> मिट्टी दी गई ॥

८ उस के पीछे बेतलेहेम का निगसी इवसान इस्राएल का न्याय करने लगा । और उस के तीस बेटे हुए और उस ने अपनी तीस बेटियाँ बाहर ब्याह दीं और बाहर से अपने बेटों का ब्याह करके तीस बहु ले आया १० और वह इस्राएल का न्याय सात बरस करता रहा । तब इवसान मर गया और उस को बेतलेहेम में मिट्टी दी गई ॥

११ उस के पीछे जबूलूनी एलोन इस्राएल का न्याय करने लगा और वह इस्राएल का न्याय दस बरस करता रहा । तब एलोन जबूलूनी मर गया और उस को जबूलून के देश के अय्यालोन में मिट्टी दी गई ॥

१२ उस के पीछे हिल्लेल का पुत्र पिरातोनी अब्दोन इस्राएल का न्याय करने लगा । और उस के चालीस बेटे और तीस पोते हुए जो गदहियों के सत्तर बच्चों पर सवार हुआ करते थे । वह आठ बरस लों इस्राएल का न्याय करता रहा । तब हिल्लेल का पुत्र पिरातोनी अब्दोन मर गया और उस को एप्रैम के देश के पिरातोन में जो अमालेकियों के पहाड़ी देश में है मिट्टी दी गई ॥

(शिमशोम का चरित्र)

### १३. और इस्राएली फिर वह करने लगे

जो यहोवा के लेखे में बुरा है सो यहोवा ने उन को पलिशितियों के बश में चाहीस बरस लों रक्खा ॥

२ दानियों के कुल का सेरावासी मानोह नाम एक पुरुष था जिस की स्त्री बाँझ होने के कारण न जनी थी । ३ इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा सुन, तू बाँझ होने के कारण नहीं जनी पर अब गर्भवती होकर ४ बेटा जनेगी । सो अब चौकस रह कि न तो तू दाखमधु वा और किसी भान्ति की मदिरा पीए और न कोई ५ अशुद्ध वस्तु खाए । क्योंकि तू गर्भवती हो कर एक बेटा जनेगी और उस के सिर पर छुरा न फिरे क्योंकि वह

(१) मूल में एप्रैमी । (२) मूल में नगरों में ।

जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इस्राएलियों को पलिशितियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा । उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिस का रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भययोग्य था और मैं ने उस से न पूछा कि तू कहां का है और न उस ने मुझे अपना नाम बताया । पर उस ने मुझ से कहा सुन तू गर्भवती होकर बेटा जनेगी सो अब न तो दाखमधु वा और किसी भान्ति की मदिरा पीन और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन लों परमेश्वर का नाजीर रहेगा । तब मानोह ने यहोवा से यह बिनती की कि हे प्रभु बिनती सुन परमेश्वर का वह जन जिसे तू ने मेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होनेवाला है उस से हम क्या क्या करें । मानोह की यह बात परमेश्वर ने सुन ली सो जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उस का पति मानोह उस के संग न था तब परमेश्वर का वही दूत उस के पास आया । सो उस स्त्री ने भट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया कि जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है । सो मानोह उठ कर अपनी स्त्री के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा कि क्या तू वही पुरुष है जिस ने इस स्त्री से बातें की थीं उस ने कहा मैं वही हूँ । मानोह ने कहा अब तेरे वचन पूरे हो जाएँ तो उस बालक से कैसा व्यवहार करना चाहिये और उस का क्या काम होगा । यहोवा के दूत ने मानोह से कहा जितनी वस्तुओं की चर्चा मैं ने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे । यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए और न दाखमधु वा और किसी भान्ति की मदिरा पीए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए जो जो आज्ञा मैं ने इस को दी थी उसी को यह माने । मानोह ने यहोवा के दूत से कहा हम तुझ को बिलमाने पाए कि तेरे लिये बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें । यहोवा के दूत ने मानोह से कहा चाहे तू मुझे बिलमा रक्खे पर मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा और यदि तू होमबलि करने चाहे तो यहोवा ही के लिये कर । मानोह तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है । मानोह ने यहोवा के दूत से कहा अपना नाम बताइ इसलिये कि जब तेरी बातें पूरी हों तब हम तेरा आदरमान कर सकें । यहोवा के दूत ने उस से कहा मेरा नाम तो अद्सुत है सो तू उसे क्यों पूछता है । तब मानोह ने अश्रबलि

(३) मूल में तेरा नाम क्या है ।

समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चटान पर यहोवा के लिये चढ़ाया तब उस दूत ने मानोह और उस की स्त्री के देखते देखते अनुभूत काम किया । अर्थात् जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी तब यहोवा का दूत उस वेदी पर की लौ में होकर मानोह और उस की स्त्री के देखते देखते चढ़ गया सो वे भूमि पर मुंह के बल गिरे । पर यहोवा के दूत ने मानोह और उस की स्त्री को फिर कभी दर्शन न दिया । तब मानोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था । सो मानोह ने अपनी स्त्री से कहा हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हम ने परमेश्वर का दर्शन पाया है । उस की स्त्री ने उस से कहा यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होमबलि और अन्नबलि ग्रहण न करता और न वह ऐसी सब बातें हम को दिखाता और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता । और वह स्त्री एक बेटा जनी और उस का नाम शिमशोन रखवा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उस को आशिष देता रहा । और यहोवा का आत्मा सैरा और एशताओल के बीच महनेदान<sup>१</sup> में उस को उभारने लगा ॥

### १४. शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना

में एक पलिश्टी स्त्री को देखा । सो उस ने जाकर अपने माता पिता से कहा तिम्ना में मैं ने एक पलिश्टी स्त्री को देखा है सो अब तुम उस से मेरा ब्याह करा दो । उस के माता पिता ने उस से कहा क्या तेरे भाइयों की बेटियों में वा हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्टियों में से स्त्री ब्याहने चाहता है । शिमशोन ने अपने पिता से कहा उसी से मेरा ब्याह करा दे क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है । उस के माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह पलिश्टियों के विरुद्ध दांव हूँदता है । उस समय तो पलिश्टी इस्राएल पर प्रभुता करते थे ॥

५. सो शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चल कर तिम्ना की दाखवारियों के पास पहुँचा, ६ वहाँ उस के साम्हने एक जवान सिंह गरजने लगा । तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उभ के हाथ में कुछ न था तौभी उस ने उस को ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े । अपना यह काम उस ने अपने पिता वा माता को न बतलाया । तब उस ने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन

(१) अर्थात् दान की दाखनी ।

को अच्छी लगी । कुछ दिन बीते वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ देखने के लिये मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधु-मक्खियों का एक झुण्ड और मधु भी है । सो वह उस में से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उन को यह बिना बताये कि मैं ने इस को सिंह की लोथ में से निकाला है कुछ दिया और उन्होंने उसे खाया । तब उस का पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ जेवनार की । उस को देखकर वे उस के संग रहने के लिये तीस संगियों को ले आये । शिमशोन ने उन से कहा मैं तुम से एक पहेली कहता हूँ यदि तुम इस जेवनार के सातों दिन के भीतर उसे बूझ कर अर्थ बतला दो तो मैं तुम को तीस कुरते और तीस जोड़े कपड़े दूंगा । और यदि तुम उसे न बतला सके तो तुम को मुझे तीस कुर्ते और तीस जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे उन्हीं ने उस से कहा अपना पहेली कह कि हम उसे सुनें । उस ने उन से कहा

खानेहारे में से खाना

और बलवन्त में से मीठी वस्तु निकली । इस पहेली का अर्थ वे तीन दिन के भीतर न बता सके । सातवें दिन उन्होंने ने शिमशोन की स्त्री से कहा अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बतलाए नहीं तो हम तुम्हें तेरे पिता के घर समेत भाग में जलाएंगे क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिये हमारा नेवता किया है क्या ऐसा नहीं है । सो शिमशोन की स्त्री यह कहकर उस के साम्हने रोने लगी कि तू तो मुझ से प्रेम नहीं बैर ही रखता है कि तू ने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है पर मुझ को उस का अर्थ नहीं बतलाया उस ने कहा मैं ने उसे अपनी माता व पिता को भी नहीं बतलाया फिर क्या मैं तुम्हें बतला दूँ । और जेवनार के सातों दिनों में वह स्त्री उस के साम्हने रोती रही और सातवें दिन जब उस ने उस को बहुत तंग किया तब उस ने उस को पहेली का अर्थ बतला दिया तब उस ने उसे अपनी जाति के लोगों को बतला दिया । सो सातवें दिन सूर्य डूबने न पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवन्त है । उस ने उन से कहा जो तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते तौ मेरी पहेली को कभी न बूझते ॥

तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उस ने आश्कलोन को जाकर वहाँ के तीस पुत्रों

को मार डाला और उन का धन हट कर तीस जोड़े कपड़ों को पहिली के बतानेहारों को दे दिया तब उस  
२० का कोप भड़का और वह अपने पिता के घर गया । और शिमशोन का स्त्री उस के एक संगी को जिस से उस ने मित्र का सा बर्ताव किया था ब्याह दी गई ॥

### १५. कितने दिन पीछे गेहूँ की कटनी के दिनों

में शिमशोन ने बकरी का एक बच्चा ले अपनी ससुराल जाकर कहा मैं अपनी स्त्री के पास कोठरी में जाऊंगा पर उस के ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका ।  
२ और उस के ससुर ने कहा मैं सचमुच यह जानता था कि तू उस से बैर ही रखता है सो मैं ने उसे तेरे संगी को ब्याह दिया क्या उस की छोटी बहिन उस से सुन्दर नहीं है उस  
३ के बदले उसी को ब्याह ले । शिमशोन ने उन लोगों से कहा अब चाहे मैं पलिशतियों की हानि भी करूँ तो भी उन के विषय निर्दोष ठहरूंगा । सो शिमशोन ने जाकर तीन सौ लोमड़ी पकड़ी और पलीते लेकर दो दो लोमड़ियों की पूछ एक साथ बांधी और उन के बीच एक एक पलीता  
४ बांधा । तब पलीतों को बारके उस ने लोमड़ियों को पलिशतियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूलियों के ढेर बरन खड़े खेत और जलपाई की बारिया भी जल गई ।  
५ सो पलिशती पूछने लगे यह किस ने किया है लोगों ने कहा उस तिम्ली के दामाद शिमशोन ने यह इस लिये किया कि उस के ससुर ने उसकी स्त्री उस के संगी को ब्याह दी तब पलिशतियों ने जाकर उस स्त्री और उस के पिता दोनों  
६ को आग में जला दिया । शिमशोन ने उन से कहा तुम जो ऐसा काम करते हो सो मैं तुम से पलटा लेकर तब ही चुप रहूंगा । सो उस ने उन की अति निडुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला तब जाकर एताम नाम  
७ दांग की एक दरार में रहने लगा ॥

९ तब पलिशतियों ने चढाई करके यहूदी देश में डेरे  
१० खड़े किये और लही में फैल गये । सो यहूदी मनुष्यों ने उन से पूछा तुम हम पर क्यों चढाई करते हो उन्होंने ने उत्तर दिया शिमशोन को बांधने के लिये चढाई करते हैं कि जैसे उस ने हम से किया वैसे ही हम भी उस से  
११ करें । सो तीन हजार यहूदी पुरुष एताम नाम दांग की दरार को जाकर शिमशोन से कहने लगे क्या तू नहीं जानता कि पलिशती हम पर प्रभुवा करते हैं फिर तू ने हम से ऐसा क्यों किया है उस ने उन से कहा जैसा उन्होंने मुझ से किया था वैसा ही मैं ने भी उन से किया है ।  
१२ उन्होंने ने उस से कहा हम तुम्हें बांधकर पलिशतियों के हाथ

में कर देने के लिये आये हैं शिमशोन ने उन से कहा मुझ से यह किरिया खाओ कि हम आप मुझ पर प्रहार न करेंगे । उन्होंने ने कहा ऐसा न होगा हम तुम्हें कसकर उन  
१३ के हाथ में कर देंगे पर तुम्हें किसी रीति न मार डालेंगे सो वे उस को दो नई रस्तियों से बांधकर उस ढाक में से ले गये । वह लही तक आ गया था कि पलिशती उस को देख  
१४ कर ललकारने लगी तब यहूदी का आत्मा उस पर बल से उतरा और उस की बांहों की रस्तियां आग में जलने हुए सन के समान हो गई और उस के हाथों के बन्धन मानों गलकर टूट पड़े । तब उस को गदहे के जभड़े की एक  
१५ नई हड्डी मिली और उस ने हाथ बढ़ा उसे लेकर एक हजार पुरुषों को मार डाला । तब शिमशोन ने कहा  
१६ गदहे के जभड़े की हड्डी से ढेर के ढेर गदहे के जभड़े की हड्डी ही से मैं ने हजार पुरुषों को मार डाला ॥

जब वह ऐसा कह चुका तब उस ने जभड़े की हड्डी फेंक  
१७ दी और उस स्थान का नाम रामतलही<sup>२</sup> रखा गया । तब  
१८ उस को बड़ी प्यास लगी और उस ने यहूदी का पुकारके कहा तू ने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूँ । सो परमेश्वर ने लही में ओखली सा गदहा कर दिया  
१९ और उस में से पानी निकलने लगा और जब शिमशोन ने पिया तब उस के जी में जी आया और वह फिर जी गया इस कारण उस सेते का नाम एनहक्कोरे<sup>३</sup> रक्खा गया वह आज के दिन लही में है । शिमशोन तो पलिशतियों  
२० के दिनों में बीस बरस लोहा इखाएल का न्याय करता रहा ॥

### १६. तब शिमशोन अज्जा को गया और वहां

एक बेरया को देखकर उस के पास गया । जब अज्जियों को इस का समाचार मिला कि शिमशोन  
२ यहां आया है तब उन्होंने ने उस को घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उस की घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि बिहान को भोर होते ही हम उस का घात करेंगे । पर शिमशोन आधी रात लोहा  
३ पड़ा रहकर आधी रात को उठ नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेंड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कन्धों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सम्हने है ॥

(१) पूछ वे जाँच पर ढाँच ।

(२) अर्थात् जभड़े का टीला । (३) अर्थात् पुकारनेहारों का सेता ।

४ इस के पीछे वह सोरेक नाम वाले में रहनेवाली  
 ५ दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा । सो पलि-  
 श्रितियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जा के कहा तू  
 उस को फुसला कर बूझ ले कि उस का बड़ा बल काहे से  
 है और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो  
 सकें कि उसे बांध कर दया रखें तब हम तुम्हें ग्यारह  
 ६ ग्यारह सौ डकड़ें चान्दी देंगे । तब दलीला ने शिमशोन  
 से कहा मुझे बता दे कि तेरा बड़ा बल काहे से है और  
 ७ किस रीति से कोई तुम्हें बांधकर दबा रख सके । शिम-  
 शोन ने उस से कहा यदि मैं सात ऐसी नई नई तातों से  
 बांधा जाऊँ जो सुखार्ह न गई हों तो मेरा बल घट  
 ८ जायगा और मैं साधारण मनुष्य सा ही जाऊँगा । सो  
 पलिश्रितियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई  
 सात तातें ले गये जो सुखार्ह न गई थीं और उन से उस  
 ९ ने शिमशोन को बांधा । उस के पास तो कुछ मनुष्य  
 कोठरी में घात लगाये बैठे थे सो उस ने उस से कहा हे  
 शिमशोन पलिश्रिती तेरी घात में हैं तब उस ने तातों को  
 फेला तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता  
 १० है और उस के बल का भेद न खुला । सो दलीला  
 ने शिमशोन से कहा सुन तू ने तो मुझ से छल किया और  
 झूठ कहा है अब मुझे बतला दे कि तू काहे से बंध सकता  
 ११ है । उस ने उस से कहा यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से  
 जो किसी काम में न आई हों कसकर बांधा जाऊँ तो मेरा  
 बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान ही  
 १२ जाऊँगा । सो दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और  
 उस को बांध कर कहा हे शिमशोन पलिश्रिती तेरी घात  
 में हैं । कितने मनुष्य तो उस कोठरी में घात लगाये हुए  
 थे । तब उस ने उन को सूत की नाई अपनी भुजाओं पर  
 १३ से तोड़ डाला । सो दलीला ने शिमशोन से कहा अब  
 लों तू मुझ से छल करता और झूठ बोलता आया है सो  
 मुझे बतला दे कि तू काहे से बंध सकता है उस ने कहा  
 यदि तू मेरे सिर की सातों लट्टें ताने में बुने  
 १४ तो बन्ध सकूँगा । सो उस ने उसे खूंटो से जकड़ा तब उस से  
 कहा हे शिमशोन पलिश्रिती तेरी घात में हैं तब वह  
 नींद से चौंक उठा और खूंटो की धरन में से उखाड़कर उसे  
 १५ ताने समेत ले गया । तब दलीला ने उस से कहा तेरा  
 मन तो मुझ से नहीं लगा फिर तू क्यों कहता है कि मैं  
 तुझ से प्रीति रखता हूँ तू ने ये तीनों बार मुझ से छल  
 किया और मुझे नहीं बताया कि तेरा बड़ा बल काहे से  
 १६ है । सो जब उस ने दिन दिन बातें करते करते उस को तंग  
 किया और यहाँ लों हठ किया कि उस का दम नाक में  
 १७ हो गया, तब उस ने अपने मन का सारा भेद खोलकर

उस से कहा मेरे सिर पर छुगा कभी नहीं फिरा क्योंकि  
 मैं मा के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूँ यदि मैं मूढ़ा  
 जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य  
 सा हो जाऊँगा । यह देखकर कि उस ने अपने मन का १८  
 सारा भेद मुझ से कह दिया है दलीला ने पलिश्रितियों  
 के सरदारों के पास कहला भैया कि अब की फिर आओ  
 क्योंकि उस ने अपने मन का सब भेद मुझे बतला दिया  
 है सो पलिश्रितियों के सरदार हाथ में रुपया लिये हुए उस  
 के पास गये । तब उस ने उस को अपने घुटनों पर बुला १९  
 रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उस के सिर की सातों  
 लट्टें मुरहवा डालीं और वह उस को दबाने लगी और  
 वह निर्बल हो गया । तब उस ने कहा हे शिमशोन २०  
 पलिश्रिती तेरी घात में हैं तब वह चौंककर सोचने लगा  
 कि मैं पहिले की नाई बाहर जाकर भटकूँगा वह तो न  
 जानता था कि यहोवा मेरे पास से चला गया है । सो २१  
 पलिश्रितियों ने उस को पकड़कर उस की आंखें फोड़  
 डालीं और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से  
 जकड़ दिया और वह बन्दीगृह में चक्की पीसने लगा ।  
 उस के सिर के बाल मुरह जाने के पीछे फिर बढ़ने लगे ॥ २२  
 तब पलिश्रितियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता २३  
 के लिये बड़ा यज्ञ और आनन्द करने को यह कहकर इकट्ठे  
 हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे  
 हाथ में कर दिया है । और जब लोगों ने उसे देखा तब २४  
 यह कहकर अपने देवता की स्तुति की कि हमारे देवता ने  
 हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करनेहारे को जिस ने  
 हम में से बहुतों को मार भी डाला हमारे हाथ में कर दिया  
 है । जब उन का मन मगन हो गया तब उन्हें ने कहा २५  
 शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिये तमाशा करे  
 सो शिमशोन बन्दीगृह में से बुलवाया गया और उन के  
 लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया  
 गया । तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उस का हाथ २६  
 पकड़े था कहा मुझे उन खंभों को जिन से घर संभला हुआ  
 है छूने दे कि मैं उन पर टेक लगाऊँ । वह घर तां स्त्री २७  
 पुरुषों में भरा हुआ था और पलिश्रितियों के सब सरदार भी  
 वहाँ थे और छत पर कोई तीन हजार स्त्री पुरुष थे जो शिम-  
 शोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे । तब शिमशोन ने २८  
 यह कह कर यहोवा की दोहाई दी कि हे प्रभु यहोवा मेरी  
 सुधि ले हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं  
 पलिश्रितियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूँ ।  
 तब शिमशोन ने उन दोनों बीचवाले खंभों को जिन से २९  
 घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर दहिने हाथ से  
 और दूसरे पर बाएँ हाथ से बल लगा दिया । और ३०

शिमशान ने कहा पत्नियों के संग मेरा प्राण भी जाए और वह अपना सारा बल करके भुका तब वह घर सब दरदारों और उस में के सारे लोगों पर गिर पड़ा । सो जिन को उस ने मरते समय मार डाला वे उन से भी अधिक थे जिन्हें उस ने जीते जी मार डाला था । तब उस के भाई और उस के पिता के सारे घराने के लोग आये और उसे उठाकर ले गये और सोरा और एस्ताओल के बीच उस के पिता मानोह की कबर में मिट्टी दी । उस ने तो इस्ताएल का न्याय बीस बरस तक किया था ॥

१७. एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका नाम एक पुरुष था । उस ने अपनी माता से कहा जो ग्यारह सौ टुकड़े चान्दी तुम्ह से ले लिये गये जिन के त्रिपय तू ने मेरे सुनते भी स्नाप दिया था वे मेरे पास हैं मैं ही ने उन को ले लिया था । उस की माता ने कहा मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशिष होए । जब उस ने वे ग्यारह सौ टुकड़े चान्दी अपनी माता को फेर दिये तब माता ने कहा मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिये यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ कि उस से एक मूरत खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई जाए सो अब मैं उसे तुम्ह को फेर देती हूँ । जब उस ने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया तब माता ने दो सौ टुकड़े ढलवैये को दिये और उस ने उन से एक मूर्ति खोद कर और दूसरी ढालकर बनाई और वे मीका के घर में रहीं । मीका के तो एक देवथान था सो उस ने एक एपोद और कई एक गृहदेवता बनवाये और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया । उन दिनों में इस्ताएलियों का कोई राजा न था जिस को जो ठीक सुझ पड़ता था वही वह करता था ॥

यहूदा के कुल का एक जवान लेवीय यहूदा के बेतलेहेम में परदेशी होकर रहता था । वह यहूदा के बेतलेहेम नगर से इस लिये चला गया कि जहां कहीं स्थान मिले वहां मैं रहूँ । चलते चलते वह एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला । मीका ने उस से पूछा तू कहां से आता है ? उस ने कहा मैं तो यहूदा के बेतलेहेम से आया हुआ एक लेवीय हूँ और इस लिये चला आता हूँ कि जहां कहीं ठिकाना मुझे मिले वहाँ रहूँ । मीका ने उस से कहा मेरे संग रहकर मेरे लिये पिता और पुरोहित बन और मैं तुम्हें बरस बरस दस टुकड़े रूपे और एक जोड़ा कपड़ा और भोजनवस्तु दिया करूंगा सो वह लेवीय भीतर गया । और वह लेवीय उस पुरुष के संग रहने को प्रसन्न हुआ और वह जवान उस के साथ बेटा सा रहा । सो मीका ने उस लेवीय का

संस्कार किया और वह जवान उस का पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा । और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा क्योंकि मैं ने एक लेवीय को अपना पुरोहित कर रक्खा है ॥

(दानियों के लैश को जीतकर उस में बस जाने की कथा)

१८. उन दिनों इस्ताएलियों का कोई राजा न था और उन दिनों में दानियों

के गोत्र के लोग रहने के लिये कोई भाग ढूँढ रहे थे क्योंकि इस्ताएली गोत्रों के बीच उन का भाग उस समय लों न मिला था । सो दानियों ने अपने सारे कुल में से पांच शूरवीरों को सोरा और एस्ताओल से देश का भेद लेने और उस में ढूँढ ढाँढ करने के लिये यह कहकर भेज दिया कि जाकर देश में ढूँढ ढाँढ करो सो वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गये । जब वे मीका के घर के पास आये तब उस जवान लेवीय का बाल पहचाना सो वहां मुड़कर उस से पूछा तुम्हें यहां कौन ले आया और तू यहां क्या करता है और यहां तेरे पास क्या है । उस ने उन से कहा मीका ने मुझ से ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रक्खा है और मैं उस का पुरोहित हो गया हूँ । उन्होंने उस से कहा परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह सुफल होगी वा नहीं । पुरोहित ने उन से कहा कुशल से चले जाओ जो यात्रा तुम करते हो वह ठीक यहोवा के मते की है ॥

सो वे पांच मनुष्य चल दिये और लैश को जाकर उस में के लोगों को देखा कि सीदानियों की नाई निडर बेखटके और शान्ति से रहते हैं और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम में रोके और ये सीदानियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कुछ काम नहीं रखते । तब वे सोरा और एस्ताओल को अपने भाइयों के पास गये और उन के भाइयों ने उन से पूछा तुम क्या समाचार ले आये हो । उन्होंने कहा आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें क्योंकि हम ने उस देश को देखा कि वह बहुत ही अच्छा है सो तुम क्यों चुपचाप रहते हो वहां चलकर उस देश को अपने वश कर लेने में आलस न करो । वहां पहुँचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है वह ऐसा स्थान है जिस में पृथिवी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है ॥

सो वहां से अर्थात् सोरा और एस्ताओल से दानियों के कुल के छः सौ पुरुषों ने युद्ध के इत्थियार

(१) मूल में लजवाये ।



१२ बांधि कूच किया । उन्होंने ने जाकर यहूदा देश के किर्च्य-  
त्यारीम नगर में डेरे खड़े किये इस कारण उस स्थान का  
नाम महनेदान<sup>१</sup> आज लों पड़ा है वह तो किर्च्यत्यारीम  
१३ की पच्छिम ओर है । वहां से वे आगे बढ़कर एप्रैम के  
१४ पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आये । तब जो पांच  
मनुष्य लैश के देश का भेद लेने गये थे वे अपने भाइयों  
से कहने लगे क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक  
१५ एपोद कई एक गृहदेवता एक खुदी और एक ढली  
हुई मूरत है सो अब सोचो कि क्या करना चाहिये । वे  
उधर मुड़कर उस जवान लेवीय के घर गये जो मीका  
१६ का घर था और उस का कुशलत्नेम पूछा । और वे छः  
सौ दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे ।  
१७ और जो पांच मनुष्य देश का भेद लेने गये थे उन्होंने ने  
वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और गृह-  
देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया और वह  
पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए छः सौ पुरुषों  
१८ के संग खड़ा था । जब वे पांच मनुष्य मीका के घर में  
घुसकर खुदी हुई मूरत एपोद गृहदेवता और ढली हुई  
मूरत को ले आये तब पुरोहित ने उन से पूछा यह तुम  
१९ क्या करते हो । उन्होंने ने उस से कहा चुप रह अपने मुंह  
को हाथ से बन्द कर और हम लोगों के संग चलकर  
हमारे लिये पिता और पुरोहित बन तेरे लिये क्या अच्छा  
है यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो वा यह  
कि इस्राएलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो ।  
२० तब पुरोहित प्रसन्न हुआ सो वह एपोद गृहदेवता और  
खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया ।  
२१ तब वे मुड़े और बालबच्चों पशुओं और सामान को अपने  
२२ आगे करके चल दिये । जब वे मीका के घर से दूर  
निकल गये थे तब जो मनुष्य मीका के घर के पासवाले  
घरों में रहते थे उन्होंने ने इकट्ठे होकर दानियों को जा  
२३ लिया, और दानियों को पुकारा तब उन्होंने ने मुंह फेरके  
मीका से कहा तुम्हें क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल  
२४ लिये आता है<sup>२</sup> । उस ने कहा तुम तो मेरे बनवाये हुए  
देवताओं और पुरोहित को ले चले हो फिर मेरे क्या रह  
गया सो तुम मुझ से क्यों पूछते हो कि तुम्हें क्या हुआ  
२५ है । दानियों ने उस से कहा तेरा बोल हम लोगों में  
सुनाई न दे कहीं ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम लोगों  
पर प्रहार करें और तू अपना और अपने घर के लोगों  
२६ का भी प्राण खो दे । सो दानियों ने अपना मार्ग लिया  
और मीका यह देख कि वे मुझ से अधिक बलवन्त हैं

(१) अर्थात् दान की छावनी ।

(२) मूल में तू इकट्ठा हुआ है ।

फिरके अपने घर लौट गया । और वे मीका के बनवाये २७  
हुए पदार्थों और उस के पुरोहित को साथ ले लैश के पास  
आये जिस के लोग शांति से और बिना खटकें रहते थे  
और उन्होंने ने उन को तलवार से मार डाला और नगर  
को आग लगाकर फूंक दिया । और कोई बचानेहारा न २८  
था क्योंकि वह सीदोन से दूर था और वे और मनुष्यों  
से कुछ व्यवहार न रखते थे और वह बेत्रहोब की तराई  
में था । तब उन्होंने ने नगर को दृढ़ किया और उस में  
रहने लगे । और उन्होंने ने उस नगर का नाम इस्राएल २९  
के एक पुत्र अपने मूलपुरुष दान के नाम पर दान  
रक्खा पर पहिले तो उस नगर का नाम लैश था । तब ३०  
दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया और  
देश की बंधुआई के समय लों योनातान जो गेशीम का  
पुत्र और मूसा<sup>३</sup> का पांता था वह और उस के वंश के  
लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे । और जब लों ३१  
परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा तब लों वे मीका  
की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किये रहे ॥

(बिन्यामीनियों के पाप में अड़े रहने और प्रार्थः नारा  
किये जाने की कथा)

१६. उन दिनों में जब इस्राएलियों का

कोई राजा न था तब एक लेवीय  
पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी होकर  
रहता था जिस ने यहूदा के बेतलेहेम में की एक सुरैतिन  
रख ली थी । उस की सुरैतिन व्यभिचार करके यहूदा के २  
बेतलेहेम को अपने पिता के घर चली गई और चार  
महीने वहीं रही । तब उस का पति अपने साथ एक ३  
सेवक और दो गदहे लेकर चला और उस के यहां गया  
कि उसे समझा बुझाकर फेर ले आए । वह उसे अपने  
पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उसे ४  
देखकर उस की भेंट से आनन्दित हुआ । तब उस के  
ससुर अर्थात् उस स्त्री के पिता ने उसे बिनती करके  
दबाया सो वह उस के पास तीन दिन रहा सो वे वहां  
खाते पीते टिके रहे । चौथे दिन जब वे भोर को सबेरे ५  
उठे और वह चलने को हुआ तब स्त्री के पिता ने अपने  
दामाद से कहा एक टुकड़ा रोटी लाकर अपना जी ढरका  
कर पीछे तुम लोग चले जाना । सो उन दोनों ने बैठकर ६  
संग संग खाया पिया फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से  
कहा और एक रात टिके रहने को प्रसन्न हो आनन्द  
कर । वह पुरुष बिदा होने को उठा पर उस के ससुर ७  
ने बिनती करके उसे दबाया सो उस ने फिर उस के  
यहां रात बिताई । पांचवें दिन भोर को वह तो बिदा ८

(३) वा मनरेशी ।

होने को सबेरे उठा पर स्त्री के पिता ने कहा अग्ना जी  
 ठण्डा कर और तुम दोनों दिन ढलने लो बिलमे रहे सो  
 ९ उन दोनों ने रोटी खाई । जब वह पुरुष अपनी सुरैतिन  
 और सेवक समेत बिदा होने को उठा तब उस के समुर  
 अर्थात् स्त्री के पिता ने उस से कहा देख दिन तो ढल  
 चला है और सांभ होने पर है सो तुम लोग रात भर  
 टिके रहे देख दिन तो डूबने पर है सो यहीं आनन्द  
 करता हुआ रात बिता और बिहान को सबेरे उठकर  
 १० अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चला जाना । पर  
 उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा सो वह उठकर  
 बिदा हुआ और काठी बांधे हुए दो गदहे और अपनी  
 सुरैतिन संग लिये हुए यबूस के साम्हने लो जो यरूशलेम  
 ११ कहावता है पहुँचा । वे यबूस के पास थे और दिन बहुत  
 ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा आ हम  
 १२ यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिकें । उस के स्वामी ने  
 उस से कहा हम बिराने के नगर में जहाँ कोई इस्राएली  
 १३ नहीं रहता न उतरेंगे गिबा तक बढ़ जाएंगे । फिर उस  
 ने अपने सेवक से कहा आ हम उधर के स्थानों में से  
 किसी के पास जाएँ हम गिबा वा रामा में रात बिताएँ ।  
 १४ सो वे आगे की ओर चले और उन के बिन्यामीन  
 के गिबा के निकट पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया ।  
 १५ सो वे गिबा में टिकने के लिये उस की ओर मुड़ गये  
 और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ  
 गया क्योंकि किसी ने उन को अपने घर में न टिकाया ।  
 १६ तब एक बूढ़ा अपने खेत का काम सांभ को निपटा  
 कर चला आया । वह तो एप्रैम के पहाड़ी देश का था  
 और गिबा में परदेशी होकर रहता था पर उस स्थान के  
 १७ लोग बिन्यामीनी थे । उस ने आखें उठाकर उस यात्री  
 को नगर के चौक में बैठा देखा और उस बूढ़े ने पूछा  
 १८ कि भ्रमर जाता और कहाँ से आता है । उस ने उस से  
 कहा हम लोग तो यहूदा के बेतलेहेम से आकर एप्रैम के  
 पहाड़ी देश की परली और जाते हैं मैं तो वहाँ का हूँ और  
 यहूदा के बेतलेहेम लौं गया था और यहोवा के भवन को  
 १९ जाता हूँ पर कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता । हमारे  
 पास तो गदहों के लिये पुआल और चारा भी है और मेरे  
 और तेरी इस दासी और इस जवान के लिये भी जो तेरे  
 दासों के संग है रोटी और दाखमधु भी है हमें किसी वस्तु  
 २० की घटी नहीं है । बूढ़े ने कहा तेरा कल्याण हो तेरे  
 प्रयोजन की सब वस्तुएँ मेरे सिर हों पर रात को चौक में  
 २१ न बिता । सो वह उस को अपने घर ले चला और गदहों  
 २२ को चारा दिया तब वे पाँव धोकर खाने पीने लगे । वे  
 आनन्द कर रहे थे कि नगर के ओझों ने घर को घेर लिया

और द्वार को खटखटा खटखटाकर घर के उस बूढ़े स्वामी  
 से कहने लगे जो पुरुष तेरे घर में आया उसे बाहर ले आ  
 कि हम उस से भोग करें । घर का स्वामी उन के पास २३  
 बाहर जाकर उन से कहने लगा नहीं नहीं हे मेरे भाइयो  
 ऐसी बुराई न करो, यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है  
 इस से ऐसी मूढ़ता का काम मत करो । देखो यहाँ मेरी २४  
 कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की सुरैतिन भी है उन को  
 मैं बाहर ले आऊंगा और उन की पत लो तो लो और  
 उन से तो जो चाहे सो करो पर इस पुरुष से ऐसी  
 मूढ़ता का काम मत करो । पर उन मनुष्यों ने उस की २५  
 न मानी सो उस पुरुष ने अपनी सुरैतिन को पकड़कर  
 उन के पास बाहर कर दिया और उन्होंने ने उस से कुकर्म  
 किया और रात भर भोग लो उस से लीला क्रीड़ा करते  
 रहे और पह फटते ही उसे छोड़ दिया । तब वह स्त्री पह २६  
 फटते हुए जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिस में  
 उस का पति था गिर गई और उजियाले के होने लो  
 वही पड़ी रही । सबेरे जब उस का पति उठ घर का द्वार २७  
 खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया तो क्या देखा कि  
 मेरी सुरैतिन घर के द्वार के पास डेवढी पर हाथ फैलाये  
 हुए पड़ी है । उस ने उस से कहा उठ हम चलें जय कोई २८  
 न बोला तब वह उस को गदहे पर लादकर अपने स्थान  
 को गया । जब वह अपने घर पहुँचा तब छूरी ले सुरैतिन २९  
 को अंग अंग अलग करके काटा और उसे बारह टुकड़े  
 करके इस्राएल के सारे देश में भेज दिया । जितनों ३०  
 ने उसे देखा सो सब आपस में कहने लगे इस्राएलियों के  
 मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन  
 लो ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया सो  
 इस को सोचकर सम्मति करो और कहे ॥

२०. तब दान से लेकर बेशोबा लो के सारे

इस्राएली और गिलाद के लोग भी  
 निकले और उन की मण्डली एक मत होकर मिस्र में  
 यहोवा के पास इकट्ठी हुई । और सारी प्रजा के प्रधान २  
 लोग बरन सब इस्राएली गोत्रों के लोग जो चार लाख  
 तलवार चलानेहारे प्यादे थे परमेश्वर की प्रजा की सभा  
 में हाजिर हुए । बिन्यामीनियों ने तो सुना कि इस्राएली ९  
 मिस्र को आये हैं और इस्राएली पूछने लगे हम से  
 कहे। यह बुराई कैसे हुई । उस मार डाली हुई स्त्री के ४  
 लेवीय पति ने उत्तर दिया मैं अपनी सुरैतिन समेत  
 बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था । तब गिबा ५  
 के पुरुषों ने मुझे पर चढ़ाई की और रात के समय घर  
 को घेरके मुझे घात करना चाहा और मेरी सुरैतिन से  
 इतना कुकर्म किया कि वह मर गई । सो मैं ने अपनी ६

सुरेतिन को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इस्राएलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया उन्होंने ने तो इस्राएल में ७ महापाप और मृतता का काम किया है । सुनो हे इस्राएलियों ८ सब के सब यही बात करके सम्मति दो । तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर ९ मुड़ेगा । पर अब हम गिबा से यह करेंगे अर्थात् हम १० चिट्ठी डाल डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे । और हम सब इस्राएली गोत्रों में सो पुरुषों में से दस और हजार पुरुषों में से एक सौ और दस हजार में से एक हजार पुरुषों को ठहराए कि वे सेना के लिये भोजनवस्तु पहुंचाए इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुंचकर उस को उस मृतता का पूरा फल भुगता सकें जो उन्होंने ने ११ इस्राएल में की है । तब सब इस्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की नाई जुटे हुए इकट्ठे हो गये ॥ १२ और इस्राएली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य यह पूछने को भेजे कि यह १३ क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है । अब उन गिबावासी ओहों को हमारे हाथ कर दो कि हम उन को प्राण से मारके इस्राएल में से बुराई नाश करें । पर बिन्यामीनियों ने अपने भाई इस्राएलियों की मानने से १४ नाह किया । और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इस लिये इकट्ठे हुए कि इस्राएलियों से १५ लड़ने को निकलें । और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़ जिन की गिनती सात सौ चुने हुए पुरुष ठहरी और और नगरों से आये हुए तलवार चलानेहारें बिन्यामीनियों १६ की गिनती श्लब्धिस हजार पुरुष ठहरी । इन सब लोगों में से सात सौ बँहल्ये चुने हुए पुरुष थे जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकत थे । और बिन्यामीनियों को छोड़ इस्राएली पुरुष चार १७ लाख तलवार चलानेहारें थे ये सब के सब योद्धा थे ॥ १८ सो इस्राएली उठकर बेतेल को गये और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली और इस्राएलियों ने पूछा कि हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहिले चढ़ाई करे यहोवा ने कहा यहुदा पहिले चढ़ाई करे । १९ सो इस्राएलियों ने बिहान को उठकर गिबा के साम्हने २० डेरे किये । और इस्राएली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गये और इस्राएली पुरुषों ने उस से लड़ने २१ को गिषे के विरुद्ध पांति बांधी । तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन बाईस हजार इस्राएली पुरुषों २२ को मारके मिट्टी में मिला दिया । तीसरी इस्राएली पुरुष ओहों ने हियाब बांधकर उसी स्थान में जहां उन्होंने ने

पहिले दिन पांति बांधी थी फिर पांति बांधी । और २३ इस्राएली जाकर सांभ लों यहोवा के साम्हने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा कि क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं यहोवा ने कहा हां उन पर चढ़ाई करो ॥

सो दूसरे दिन इस्राएली बिन्यामीनियों के निकट २४ पहुंचे । तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उन का साम्हना २५ करने को गिबा से निकलकर फिर अठारह हजार इस्राएली पुरुषों को मारके जो सब के सब तलवार चलानेहारें थे मिट्टी में मिला दिया । तब सब इस्राएली बरन सब २६ लोग बेतेल को गये और रोते हुए यहोवा के साम्हने बैठे रहे और उस दिन सांभ लों उपवास किये रहे और यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढ़ाये । और इस्रा २७ एलियों ने यहोवा से सलाह ली । उस समय तो परमेश्वर की वाचा का संदूक वहीं था । और पीनहास जो हारून २८ का पोता और एलाजार का पुत्र था उन दिनों उस के साम्हने हाजिर रहा करता था । सो उन्होंने ने पूछा क्या मैं एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल जाऊं वा उन को छोड़ूं यहोवा ने कहा चढ़ाई कर क्यों कि कल मैं उन को तेरे हाथ में कर दूंगा । तब इस्राएलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया ॥ २९

तीसरे दिन इस्राएलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर ३० चढ़ाई की और पहिले की नाई गिबा के विरुद्ध पांति बांधी । सो बिन्यामीनी उन लोगों का साम्हना करने ३१ को निकले और नगर के पास से खींचे गये और जो दो सड़क एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई हैं उन में लोगों के पहिले की नाई मारने लगे और मैदान में कोई तीस इस्राएली मारे गये । बिन्यामीनी कहने लगे ३२ वे पहिले की नाई हम से मारे जाते हैं पर इस्राएलियों ने कहा हम भागकर उन को नगर में से सड़कों में खींच ले आए । तब सब इस्राएली पुरुषों ने अपने स्थान से ३३ उठकर बालतामार में पांति बांधी और घात में बैठे हुए इस्राएली अपने स्थान से अर्थात् मारेगोबा से अचानक निकले । सो सारे इस्राएलियों में से छांटे हुए दस हजार ३४ पुरुष गिबा के साम्हने आये और लड़ाई कड़ी होने लगी पर वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ा चाहती है । सो यहोवा ने बिन्यामीनियों को इस्राएल से हरबा ३५ दिया और उस दिन इस्राएलियों ने पचीस हजार एक सौ बिन्यामीनी पुरुषों को नाश किया जो सब के सब तलवार चलानेहारें थे ॥

तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गये और ३६ इस्राएली पुरुष उन घातुओं का भरोसा करके जिन्हें

उन्होंने गिवा के पास बैठाया था विन्यामीनियों के ३७  
 साम्हने से हट गये । पर घातू लोग कुर्ती करके गिवा  
 पर झपट गये और घातुओं ने आगे बढ़कर सारे नगर ३८  
 को तलवार से मारा । इस्राएली पुरुषों और घातुओं के  
 बीच तो यह चिह्न ठहराया गया था कि वे नगर में से ३९  
 बहुत बड़ा धूएँ का खंभा उठाएँ । इस्राएली पुरुष तो  
 लड़ाई में हटने लगे और विन्यामीनियों ने यह कहकर ४०  
 कि निश्चय वे पहिली लड़ाई की नाई हम से शर्रे जाते हैं  
 इस्राएलियों को मार डालने लगे और तीस एक पुरुषों  
 को घात किया । पर जब वह धूएँ का खंभा नगर में से ४१  
 उठने लगा तब विन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की  
 तो क्या देखा कि नगर का नगर धूआं होकर आकाश ४२  
 की ओर उड़ रहा है । तब इस्राएली पुरुष घूमे और  
 विन्यामीनी पुरुष यह देखकर भभर गये कि हम पर ४३  
 विपत्ति आ पड़ी है । सो उन्होंने इस्राएली पुरुषों को  
 पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया पर लड़ाई उन से ४४  
 लगी ही रही और जो और नगरों में से आये थे उन को  
 पक्षाप्ली बीच में नाश करते गये । उन्होंने विन्यामीनियों ४५  
 को घेर लिया उन्होंने उन्हें खदेड़ा वे मनुहा में बरन  
 गिवा की पूरब ओर तक उन्हें लताड़ते गये । और विन्या-  
 मीनियों में से अठारह हजार पुरुष जो सब के सब शूर-  
 वीर थे मारे गये । तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन ४६  
 नाम ढांग की ओर तो भाग गये पर इस्राएलियों ने उन में  
 से सड़कों में पांच हजार को बिनकर मार डाला फिर गिदोम  
 लों उन के पीछे पड़े उन में से दो हजार पुरुष मार ४७  
 डाले । सो विन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गये वे  
 पचीस हजार तलवार चलाने वाले पुरुष थे और ये सब ४८  
 शूरवीर थे । पर छः सौ पुरुष घूमकर जंगल की ओर  
 भागे और रिम्मोन नाम ढांग में पहुँच गये और चार  
 महीने वहीं रहे । तब इस्राएली पुरुष लौटकर विन्यामीनियों ४९  
 पर लपके और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु क्या जो कुछ  
 मिला सब को तलवार से नाश कर डाला और जितने  
 नगर उन्हें मिले उन सभी को आग लगाकर फूँक दिया ॥

## २१. इस्राएली पुरुषों ने तो मिस्या में

किरिया खाकर कहा था कि हम में से कोई अपनी बेटी किसी विन्यामीनी को न १  
 ब्याह देगा । सो वे बेतेल को जाकर मांभ लों परमेश्वर २  
 के साम्हने बैठे रहे और फूट फूटकर बहुत रोते रहे, और  
 कहते थे हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा इस्राएल में ३  
 ऐसा क्यों होने पाया कि आज इस्राएल में एक गोत्र  
 की घटी हुई है । फिर दूसरे दिन उन्होंने सबेरे ठठ वहां ४

बेदी बनाकर होमबलि मेलबलि और चढ़ाये । तब इस्राएली ५  
 पूछने लगे इस्राएल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा  
 के पास सभा में न आया था । उन्होंने तो भारी किरिया ६  
 खाकर कहा था कि जो कोई मिस्या को यहोवा के पास  
 न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा । सो इस्राएली ७  
 अपने भाई विन्यामीनी के विषय यह कहकर पछताने  
 लगे कि आज इस्राएल में से एक गोत्र कट गया है ।  
 हम ने जो यहोवा की किरिया खाकर कहा है कि हम ८  
 उन्हें अपनी किसी बेटी को न ब्याह देंगे सो बच्चे हुआ  
 को स्त्रियां मिलने के लिये क्या करें । जब उन्होंने ने पूछा ९  
 इस्राएल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्या को यहोवा के  
 पास न आया था तब यह पाया गया कि गिलादी १०  
 यावेश से कोई छावनी में सभा को न आया था । कैसे  
 कि जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि ११  
 गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है ।  
 सो मण्डली ने बारह हजार शूरवीरों को वहां यह आज्ञा १२  
 देकर भेज दिया कि तुम जाकर स्त्रियों और बालबच्चों  
 समेत गिलादी यावेश को तलवार से नाश करो । और १३  
 तुम्हें जो करना होगा सो यह है सब पुरुषों को और  
 जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुँह देखा हो उन को सत्या-  
 नाश कर डालना । और उन्हें गिलादी यावेश के निवा- १४  
 सियों में से चार सौ जवान कुमारियां मिलीं जिन्होंने ने  
 पुरुष का मुँह न देखा था और उन्हें वे शीलो की जो १५  
 कान देश में है छावनी में ले आये ॥

तब सारी मण्डली ने उन विन्यामीनियों के पास जो १६  
 रिम्मोन नाम ढांग पर थे कहला भेजा और उन से संधि  
 का प्रचार कराया । सो विन्यामीनी उसी समय लौट गया १७  
 और उन के वे स्त्रियां दी गईं जो गिलादी यावेश की  
 स्त्रियों में से जीती छोड़ी गईं तोभी वे उन के लिये थोड़ी १८  
 थीं । सो लोग विन्यामीनी के विषय फिर यह कहके पछ-  
 ताये कि यहोवा ने इस्राएल के गोत्रों में घटी की है ॥ १९

सो मण्डली के पुरनियों ने कहा विन्यामीनी स्त्रियां २०  
 जो नाश हुई हैं सो बच्चे हुए पुरुषों के लिये खी पाने का  
 हम क्या उपाय करें । फिर उन्हो ने कहा बच्चे हुए २१  
 विन्यामीनियों के लिये कोई भाग चाहिये ऐसा न हो कि  
 इस्राएल में से एक गोत्र मिट जाए । पर हम तो अपनी २२  
 किसी बेटी को उन्हें ब्याह नहीं दे सकते क्योंकि इस्राए-  
 लियों ने यह कहकर किरिया खाई है कि स्थापित हो वह  
 जो किसी विन्यामीनी को अपनी लड़की ब्याह दे । फिर २३  
 उन्होंने ने कहा सुनो शीलो जो बेतेल की उत्तर ओर और  
 उस मड़क की पूरब ओर है जो बेतेल से शकैन को चली २४  
 गई है और लबोना की दक्खिन ओर है उस में बरस

२० बरस यहोवा का एक पर्व माना जाता है । सो उन्होंने ने  
बिन्यामीनियों को यह आशा दी कि तुम जाकर द्राख  
२१ की बारियों के बीच घात लगाये बैठे रहो, और देखते  
रहो और यदि शीलो की लड़कियां नाचने को निकलें तो  
तुम दाल की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों  
में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश  
२२ को चले जाना । और जब उन के पिता वा भाई हमारे  
पास भगड़ने को आए तब हम उन से कहेंगे कि अनुग्रह  
करके उन को हमें दे दो क्योंकि लड़ाई के समय हम ने  
उन में से एक एक के लिये स्त्री न बचाई और तुम

(१) मूल में ली ।

लोगों ने तो उन को ब्याह नहीं दिया नहीं तो तुम अब  
दोषी ठहरते । सो बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया २३  
अर्थात् उन्होंने ने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने-  
हारियों में से पकड़कर स्त्रियां ले लीं तब अपने भाग को  
लौट गये और नगरों को बसाकर उन में रहने लगे ।  
उसी समय इस्राएली वहां से चलकर अपने अपने गोत्र २४  
और अपने अपने घराने को गये और वहां से वे अपने  
अपने निज भाग को गये । उन दिनों इस्राएलियों का २५  
कोई राजा न था जित्त को जो ठीक एक पदता या वही  
बह करता था ॥

## रूत नाम पुस्तक ।

१. जिन दिनों न्यायो लोग न्याय करते थे  
उन दिनों देश में अकाल पड़ा सो  
यहूदा के बेतलेहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों  
पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर  
२ रहने के लिये चला । उस पुरुष का नाम एलामेलोक  
और उस की स्त्री का नाम नाओमी और उस के दो  
बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे ये एप्राती  
अर्थात् यहूदा के बेतलेहेम के रहनेहार थे और मोआब  
३ के देश में आकर वहां रहे । और नाओमी का पति  
एलामेलोक मर गया और नाओमी और उस के दोनों  
४ पुत्र रह गये । और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह  
ली एक स्त्री का नाम तो ओर्ग और दूसरी का नाम  
५ रूत था फिर वे वहां कोई दस बरस रहे । तब महलोन  
और किल्योन दोनों मर गये सो नाओमी अपने दोनों  
६ पुत्रों और पति से रहित हो गई । तब वह मोआब के  
देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों  
की सुधि लेके उन्हें भोजनवस्तु दी है उस देश से अपनी  
७ दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली । सो वह अपनी  
दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली  
और वे यहूदा देश को लौट जाने के मार्ग से चली ।  
८ तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा तुम अपने  
अपने मेके लौट जाओ और जैसे तुम ने उन से जो  
मर गये हैं और मुझ से भी प्रीति की है ऐसे ही यहोवा  
९ तुम्हारे ऊपर कृपा करे । यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर

पति करके उन के घरों में विश्राम पाओ; तब उस ने  
उन को चूमा और वे चिक्का चिक्काकर राने लगीं, और १०  
उस से कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास  
चलेंगी । नाओमी ने कहा हे मेरी बेटियो लौट जाओ ११  
तुम काहे को मेरे संग चलोगी क्या मेरी कोख में और  
पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों । हे मेरी बेटियो लौटकर १२  
चली जाओ क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ और चाहे  
मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात  
मेरे पति होता भी और मैं पुत्र भी जनती, तौभी क्या १३  
तुम उन के सयाने होने लो आशा लगाये ठहरी  
रहती और उन के निमित्त पति करने से रुकी रहती  
हे मेरी बेटियो ऐसा न हो क्योंकि मेरा दुःख तुम्हारे  
दुःख से बहुत बढ़कर है देखो यहोवा का हाथ मेरे  
विरुद्ध उठा है । तब वे फिर रो उठीं और ओर्ग ने तो १४  
अपनी सास को चूमा पर रूत उस से अलग न हुई ।  
सो उस ने कहा देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों १५  
और अपने देवता के पास लौट गई है सो तू अपनी  
जिठानी के पीछे लौट जा । रूत बोली तू मुझ से यह १६  
बिनती न कर कि मुझे त्याग वा छोड़कर लौट जा  
क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊँगी जहां तू टिके  
वहां मैं भी टिकूँगी तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा  
परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा । जहां तू मरेगी वहां १७  
मैं भी मरूँगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी यदि

(१) मूल में कश्वाहट । (२) वा देवरानी ।

मृत्यु छोड़ और किसी कारणा मैं तुम्ह से अलग होऊँ तो  
 १८ यहोवा मुझ से वैसा ही बरन उस से भी अधिक करे । जब  
 उस ने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है तब  
 १९ उस ने उस से और बात न कही । सो वे दोनों चल दीं  
 और बेतलेहेम को पहुँचीं और उन के बेतलेहेम में पहुँचने  
 पर सारे नगर में उन के कारण धूम मची और जियाँ  
 २० कहने लगीं क्या यह नाओमी है । उस ने उन से  
 कहा मुझे नाओमी<sup>१</sup> न कहो मुझे मारा<sup>२</sup> कहो क्योंकि  
 २१ सर्वशक्तिमान् ने मुझ को बड़ा दुःख दिया<sup>३</sup> है । मैं भरी  
 पूरी चली गई थी पर यहोवा ने मुझे छुड़ी लौटाया है  
 सो जब कि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और  
 सर्वशक्तिमान् ने मुझे दुःख दिया है फिर तुम मुझे क्यों  
 २२ नाओमी कहती हो । सो नाओमी अपनी मोआबिन बहू  
 रुत समेत लौटी जो मोआब देश से लौट आई  
 और वे जौ कटने के आरंभ के समय बेतलेहेम में  
 पहुँचीं ॥

## २. नाओमी के पति एलीमेलोक के कुल में उस का एक बड़ा धनी

२ कुटुंब था जिस का नाम बोअज था । और मोआबिन रुत  
 ने नाओमी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ  
 पर अनुग्रह की दृष्टि करे उस के पीछे पीछे मैं सिला  
 ३ धानगी जाऊँ उस ने कहा चली जा बेटी । सो वह जाकर  
 एक खेत में लवनेहारों के पीछे धीनने लगी और जिस  
 खेत में<sup>४</sup> वह संयोग से गई थी वह एलीमेलोक के कुटुम्बी  
 ४ बोअज का था । और बोअज बेतलेहेम से आकर लव-  
 नेहारों से कहने लगा यहोवा तुम्हारे संग रहे और वे  
 ५ उस से बोले यहोवा तुम्हें आशिष दे । तब बोअज ने अपने  
 उस सेवक से जा लवनेहारों के ऊपर ठहरा था पूछा वह  
 ६ किस की कन्या है । जो सेवक लवनेहारों के ऊपर ठहरा  
 था उस ने उत्तर दिया वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी  
 ७ के संग मोआब देश से लौट आई है । उस ने  
 कहा था मुझे लवनेहारों के पीछे पीछे फूलों के बीच  
 धीनने और बालें बटोरने दे सो वह आई और भोर से अब  
 ८ लौं बनी है केवल थोड़ी बेर तक घर में रही थी । तब  
 बोअज ने रुत से कहा हे मेरी बेटी क्या तू सुनती है  
 किसी दूसरे के खेत में धीनने को न जाना मेरी ही  
 ९ दासियों के संग यहीं रहना । जिस खेत के वे लवती हों

उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे  
 चला करना क्या मैं ने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुम्ह  
 से न बोलें और जब जब तुम्हें प्यास लगे तब तब तू बर-  
 तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना ।  
 तब वह भूमि लों भुककर मुंह के बल गिरी और उस से १०  
 कहने लगी क्या कारण है कि तू ने मुझ परदेशिन पर  
 अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है । बोअज ने उसे ११  
 उत्तर दिया जो कुछ तू ने पति मरने के पीछे अपनी सास  
 से किया है और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्म-  
 भूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिन को पहिले  
 तू न जानती थी यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया  
 है । यहोवा तेरी करनी का फल दे और इस्त्राएल का पर- १२  
 मेश्वर यहोवा जिस के पंखों तले तू शरण लेने आई है  
 तुम्हें पूरा बदला दे । उस ने कहा हे मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह १३  
 की दृष्टि मुझ पर बनी रहे क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों  
 में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ तौ भी तू ने अपनी दासी  
 के मन में पैठनेहारी बातें कहकर मुझे शान्ति दी है ।  
 फिर खाने के समय बोअज ने उस से कहा यहीं आकर १४  
 रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर । सो वह लव-  
 नेहारों के पास बैठ गई और उस ने उस को मुनी हुई  
 बालें दीं और वह खाकर तृप्त हुई बरन कुछ बचा भी रक्खा ।  
 जब वह धीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को १५  
 आज्ञा दी कि उस को फूलों के बीच बीच में भी धीनने दो  
 और दोप मत लगाओ । बरन मुट्टी भर जाने पर कुछ कुछ १६  
 निकाल कर गिरा भी दिया करो और उस के धीनने के  
 लिये छोड़ दो और उसे धुड़को मत । सो वह सांभ लों खेत में १७  
 धीनती रही तब जो कुछ धीन चुकी उसे फटका और वह  
 कोई एपा भर जौ निकला । तब वह उसे उठा कर नगर १८  
 में गई और उस की सास ने उस का बीना हुआ देखा और  
 जो कुछ उस ने तृप्त होकर बचाया था उस को उस ने  
 निकालकर अपनी सास को दिया । उस की सास ने उस १९  
 से पूछा आज तू कहां धीनती और कहां काम करती थी, धन्य  
 वह हो जिस ने तेरी सुधि ली है तब उस ने अपनी सास  
 को बता दिया कि मैं ने किस के पास काम किया और  
 कहा कि जिस पुरुष के पास मैं ने आज काम किया उस  
 का नाम बोअज है । नाओमी ने अपनी बहू से कहा वह २०  
 यहोवा की ओर से आशिष पाए क्योंकि उस ने न तौ  
 जीते हुआँ पर से और न मरे हुआँ पर से अपनी करुणा  
 हटाई फिर नाओमी ने उस से कहा वह पुरुष तौ हमारा  
 एक कुटुंबी है बरन उन में से है जिन को हमारी भूमि  
 छुड़ाने का अधिकार है । फिर रुत मोआबिन बोली उस ने २१  
 मुझ से यह भी कहा कि जब लों मेरे सेवक मेरी सारी

(१) अर्थात् मनोहर । (२) अर्थात् दुखिधारी । मूल में कइवी (३) मूल  
 में मुझ से बहुत कइवा व्यवहार क्रिया । (४) मूल में जिस खेत के  
 भाग में ।

कटनी न कर चुके तब लों उन्हीं के संग संग लगी रह ।  
 १२ नाओमी ने अपने बहू रुत से कहा मेरी बेटी यह  
 अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ  
 जाया करे और वे तुझ से दूसरे के खेल में न मिलें ।  
 १३ सो रुत जो और गेहूँ दोनों की कटनी के अन्त लों  
 बीनने के लिये बोअज की दासियों के साथ साथ लगी  
 रही और अपनी सास के यहां रहती थी ॥

### ३. उस की सास नाओमी ने उस से कहा है

मेरी बेटी क्या मैं तेरे लिये ठबिन  
 १ दूँ कि तेरा भला हो । अब जिस की दासियों के पास  
 तू थी क्या वह बोअज हमारा कुटुम्बी नहीं है वह तो  
 ३ आज रात को खलिहान में जौ ओसाएगा । सो तू स्नान  
 कर तेल लगा बस्त्र पहिन कर खलिहान को जा पर जब लों  
 वह पुरुष खा पी न चुके तब लों अपने को उस पर प्रगट  
 ४ न करना । और जब वह लेट जाए तब तू उस के लेटने  
 के स्थान को देख लेना फिर भीतर जा उस के पांव उधार  
 के लेट जाना तब वही तुझे बतलाएगा कि तुझे क्या  
 ५ करना चाहिये । उस ने उस से कहा जो कुछ तू कहती है  
 ६ वह सब मैं करूंगी । सो वह खलिहान को गई और  
 ७ अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया । जब  
 बोअज खा पी चुका और उस का मन आनन्दित हुआ  
 तब जाकर राशि के एक सिरे पर लेट गया सो वह चुप-  
 ८ चाप गई और उस के पांव उधारके लेट गई । आधी रात  
 को वह पुरुष चौक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या  
 ९ पाया कि मेरे पांवों के पास कोई स्त्री लेटी है । उस ने  
 पूछा तू कौन है तब वह बोली मैं तो तेरी दासी रुत  
 हूँ सो तू अपनी दासी को अपनी चहर ओढ़ा दे क्योंकि  
 १० तू हमारी भूमि लुड़ानेहारे कुड़बो है । उस ने कहा हे बेटी  
 यहोवा की ओर से तुझ पर आशिष हो क्योंकि तू ने  
 अपनी पिछली प्रीति पहिली से अधिक दिखाई कैसे कि  
 तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं  
 ११ लगी । सो अब हे मेरी बेटा मत डर जो कुछ तू कहे  
 सो मैं तुझ से करूंगी क्योंकि मेरे नगर के सब लोग  
 १२ जानते हैं कि तू भली स्त्री है । और अब सच तो है  
 कि मैं लुड़ानेहारे कुड़बो हूँ तौभी एक और है जिसे मुझ  
 १३ से पहिले ही लुड़ाने का अधिकार है । सो रात भर  
 ठहरी रह और सवेरे यदि वह तेरे लिये लुड़ानेहारे का  
 काम करना चाहे तो अच्छा वही ऐसा करे पर यदि वह  
 तेरे लिये लुड़ानेहारे का काम करने को प्रसन्न न हो तो

(१) मूल में मेरे लोगों का सारा फाटक ।

यहोवा के जीवन की सोह मैं ही वह काम करूंगा भोर लों  
 लेटी रह । सो वह उस के पांवों के पास भोर लों लेटी १४  
 रही और उस से पहिले कि कोई दूसरे को चीन्ह सके  
 वह उठी और बोअज ने कहा कोई जानने न पाए कि  
 खलिहान में कोई स्त्री आई थी । तब बोअज ने कहा जो १५  
 चहर तू ओढ़े है उसे फैलाकर थाभ ले और जब उस ने  
 उसे थाभा तब उस ने छुः नपुए जो नापकर उस को  
 उठा दिया फिर वह नगर में चला गया । जब रुत अपनी १६  
 सास के पास आई तब उस ने पूछा है बेटी क्या हुआ  
 तब जो कुछ उस पुरुष ने उस से किया था वह सब उस  
 ने उसे कह सुनाया । फिर उस ने कहा यह छुः नपुए जो १७  
 उस ने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास  
 कूछे हाथ मत जा । उस ने कहा हे मेरी बेटी जब लों १८  
 तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब लों  
 चुपचाप बैठी रह क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम  
 बिना निपटाये कल न पड़ेगी ॥

### ४. तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ

गया और जिस लुड़ानेहारे कुटुम्बी  
 की चर्चा बोअज ने की थी वह भी आ गया सो बोअज  
 ने कहा हे फुलाने इधर आकर यहीं बैठ जा सो वह  
 उधर जाकर बैठ गया । तब उस ने नगर के दस पुरनियों १  
 को बुलाकर कहा यहीं बैठ जाओ सो वे बैठ गये । तब २  
 वह उस लुड़ानेहारे कुटुम्बी से कहने लगा नाओमी जो  
 मोआब देश से लौट आई है वह हमारे भाई एलीमेलक  
 की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है । सो मैं ने सोचा ४  
 कि यह बात तुझ को जताकर कहूंगा कि तू उस को इन  
 बैठे हुआ के साम्हने और मेरे लोगों के इन पुरनियों के  
 साम्हने मोल ले सो यदि तू उस को लुड़ाना चाहे तो  
 लुड़ाना और यदि तू लुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही  
 बता दे कि मैं समझ लूं क्योंकि तुझे छोड़ उस के लुड़ाने  
 का हक और किसी का नहीं है और तेरे पीछे मैं हूँ उस  
 ने कहा मैं उसे लुड़ानाऊंगा । फिर बोअज ने कहा जब तू ५  
 उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले तब उसे रुत  
 मोआबिन के हाथ से भी जो मरे हुए की स्त्री है इस  
 मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उस  
 के भाग में स्थिर कर दे । उस लुड़ानेहारे कुटुम्बी ने कहा ६  
 मैं उस को लुड़ाना नहीं सकता न ही कि मेरा निज भाग  
 चिगड़ जाए सो मेरा लुड़ाने का हक तू ले ले क्योंकि  
 मुझ से वह लुड़ाना नहीं जाता । अगले दिनों इस्राएल ७  
 में लुड़ाने और बदलने के विषय सब पक्का करने के लिये

(१) मूल में तू कौन है ।

- यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतारके दूसरे  
 ८ को देता था । इस्राएल में गवाही इस रीति होती थी । सो  
 उस झुड़ानेहारे कुटुंबी ने बोअज से यह कहकर कि तू उसे  
 ९ मोख ले अपनी जूती उतारी । सो बोअज ने पुरनियों और  
 सब लोगों से कहा तुम आज इस बात के साक्षी हो कि  
 जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और  
 महलोन का था वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल  
 १० लेता हूँ । फिर महलोन की स्त्री रुत मोआबिन की  
 भी मैं अपनी स्त्री करने के लिये इस मनसा से मोल  
 लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उस के निज भाग पर स्थिर  
 करूँ न हो कि मरे हुए का नाम उस के भाइयों में से और  
 उस के स्थान के फाटक से मिट जाए तुम लोग आज  
 ११ साक्षी ठहरे हो । तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्हें  
 ने और पुरनियों ने कहा हम साक्षी हैं यह जो स्त्री तेरे  
 घर में आती है उस को यहोवा इस्राएल के घराने की  
 दां उपजानेहारी राहेल और लेआ के समान करे और  
 तू एपाता में बीरता करे और बेतलेहेम में तेरा बड़ा नाम  
 १२ हो । और जो सन्तान यहांवा इस जवान स्त्री के द्वारा  
 तुम्हें दे उस के कारण से तेरा घराना पेरेस का सा हो  
 १३ जाए जिस को तामार यहूदा का जन्माया जनी । तब  
 (१) मूल में घर की बनानेहारी ।

बोअज ने रुत को ग्याह लिया और वह उस की स्त्री हो  
 गई और जब उस ने उस से प्रसंग किया तब यहोवा की  
 दया से उस को गर्भ रहा और वह बेटा जनी । सो १४  
 स्त्रियों ने नाओमी से कहा यहोवा धन्य है कि जिस ने  
 तुम्हें आज झुड़ानेहारे कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा  
 इस्राएल में इस का बड़ा नाम हो । और यह तेरे १५  
 जी में जी ले आनेहारा और तेरा बुढ़ापे में पालनेहारा  
 हो क्योंकि तेरी बहू जो तुम्हें से प्रेम रखती और सात  
 बेटों से भी तेरे लिये श्रेष्ठ है उसी का यह बेटा है ।  
 फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उस १६  
 की धाई का काम करने लगी । और उस की पड़ोसियों १७  
 ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है  
 लक्के का नाम ओबेद रक्खा । यिथै का पिता और दाऊद  
 का दादा वही हुआ ॥

पेरेस की यह वशावली है अर्थात् पेरेस ने हेसोन १८  
 को, और हेसोन ने राम को और राम ने अम्मीनादाब १९  
 को, और अम्मीनादाब ने नहशोन को और नहशोन ने २०  
 सल्मेन को, और सल्मेन ने बोअज को और बोअज २१  
 ने ओबेद को, और ओबेद ने यिथै को और यिथै ने २२  
 दाऊद को जन्माया ॥

## शमूएल नाम पहिली पुस्तक

(शमूएल के जन्म और लकपन का वर्णन)

१. एभैम के पहाड़ी देश के रामातैम-  
 सोपीम नाम नगर का निवासी  
 एल्काना नाम एक पुरुष था वह एप्रेमी था और सूप के  
 पुत्र तोहू का परपोता एलीहू का पांता और यरोहाम  
 २ का पुत्र था । और उस के दो स्त्रियां थीं एक का तो  
 नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था और पनिन्ना के तो  
 ३ बालक हुए पर हन्ना के कोई बालक न हुआ । वह पुरुष  
 बरस बरस अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को  
 दण्डवत् करने और मेलबलि चढ़ाने के लिये शीलो में  
 जाता था और वहाँ होमी और पीनहास नाम एली के  
 ४ दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे । और जब  
 जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी

स्त्री पनिन्ना को और उस के सब बेटों बेटियों को दान  
 दिया करता था । पर हन्ना को वह दूना दान दिया ५  
 करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था तौभी ६  
 यहोवा ने उस की कोख बन्द कर रक्खी थी । पर उस  
 की सौत इस कारण से कि यहोवा ने उस की कोख बन्द  
 कर रक्खी थी उसे अत्यन्त चिढ़ाकर कुड़ाती थी । और ७  
 वह तो बरस बरस ऐसा ही करता था और जब हन्ना  
 यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उस को चिढ़ाती  
 थी । सो वह रोई और खाना न खाया । सो उस के पति ८  
 एल्काना ने उस से कहा हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना  
 क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है क्या तेरे लिये ९  
 मैं दस बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ । तब शीलो में खाने  
 और पीने के पीछे हन्ना उठी । और यहांवा के मन्दिर के  
 चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा



- १० हुआ था । और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से  
 ११ प्रार्थना करने और बिलक बिलक रोने लगी । और उस ने  
 यह मन्त्र मानी कि हे सेनाओं के यहोवा यदि तू अपनी  
 दासी के दुःख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले  
 और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी  
 को पुत्र दे तो मैं उसे उस के जीवन भर के लिये यहोवा  
 को अर्पण करूँगी और उस के सिर पर छुरा फिरने न  
 १२ पाएगा । जब वह यहोवा के साम्हने ऐसी प्रार्थना कर रही  
 थी तब एली उस के मुँह की ओर ताक रहा था ।  
 १३ हन्ना मन ही मन कह रही थी उस के होठ तो हिलते थे  
 पर उस का शब्द न सुन पड़ता था इसलिये एली ने  
 १४ समझा कि वह नशे में है । सो एली ने उस से कहा तू  
 १५ कब लौ नशे में रहेगी अपना नशा उतार<sup>१</sup> । हन्ना ने  
 कहा नहीं है मेरे प्रभु मैं तो दुःखिन हूँ मैं ने न तो  
 दाखमधु पिया न मदिरा मैं ने अपने मन की बात खोल  
 १६ कर यहोवा से कही है<sup>२</sup> । अपनी दासी के ओझी स्त्री न  
 जान जो कुछ मैं ने अब लौ कहा है सो बहुत ही  
 १७ शोभित होने और विढ़ाई जाने के कारण कहा है । एली  
 ने कहा कुशल से चली जा इस्राएल का परमेश्वर तुझे  
 १८ मन चाहा वर दे । उस ने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में  
 अनुग्रह पाए तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया  
 १९ और उस का मुँह फिर उदास न रहा । विहान को वे  
 सवेरे उठ यहोवा को दण्डवत् करके रामा में अपने घर  
 लौट गये और एल्काना ने अपनी स्त्री हन्ना से प्रसंग किया  
 २० और यहोवा ने उस की सुधि ली । सो हन्ना गर्भवती  
 होकर समय पर पुत्र जनी और यों कहकर कि मैं ने इसे  
 २१ यहोवा से मांगा है उस का नाम शमूएल<sup>३</sup> रखवा । फिर  
 एल्काना अपने सारे घराने समेत यहोवा के साम्हने बरस  
 बरस की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्त्र पूरी करने के  
 २२ लिये गया । पर हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में  
 रह गई<sup>४</sup> कि जब बालक का दूध छूट जाए तब मैं उस  
 को ले जाऊँगी कि वह यहोवा को मुँह दिखाए और वहाँ  
 २३ सदा रहे । उस के पति एल्काना ने उस से कहा जो तुझे  
 भला लगे वही कर जब लौ तू उस का दूध न छुड़ाए तब  
 लौ यही ठहरी रह इतना हों कि यहोवा अपना वचन  
 पूरा करे । सो वह स्त्री वहीं रही और अपने पुत्र के दूध  
 २४ छूटने के समय लौ उस को पिलाती रही । जब उस ने उस  
 का दूध छुड़ाया तब वह उस को संग ले चली और तीन  
 बछड़े और एपा भर आटा और कुम्भी भर दाखमधु भी

ले गई और उस को शीलो में यहोवा के भवन में पहुँचा  
 दिया उस समय वह लड़का ही था । और उन्हीं ने २५  
 बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास हाजिर कर  
 दिया । तब हन्ना ने कहा हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की सो २६  
 हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर  
 यहोवा से प्रार्थना करती थी । यह वही बालक है जिस २७  
 के लिये मैं ने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह  
 मांगा वर दिया है । सो मैं भी इसे यहोवा को अर्पण २८  
 कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का  
 बना रहे<sup>५</sup> । तब एल्काना ने वहाँ यहोवा को दण्डवत्  
 किया ॥

२. और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन  
 यहोवा के कारण दुलसता है

मेरा सींग यहोवा के कारण ऊँचा हुआ है  
 मेरा मुँह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया  
 क्योंकि मैं तेरे किये हुए उद्धार में आनन्दित हूँ ॥

यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं

क्योंकि तुझ का छोड़ कोई है ही नहीं

और हमारे परमेश्वर के समान कोई चटान

नहीं है ॥

फूलकर अहंकार की और बातें मत करो

अन्धेर की बातें तुम्हारे मुँह में न निकलें

क्योंकि यहोवा ज्ञान ईश्वर है

और उस के काम डीक होते हैं ॥

शरबारों के धनुष टूट गये

और ठोकर खानेवालों की कटि में बल का फटा

कसा गया ॥

जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिये मजूरी करना

पड़ी,

जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे

बरन जो बाँध थी वह सात जनी

और अनेक बालकों की माता सुख गई ॥

यहोवा मारता और जिलाता भी है

अधोलोक में उतारता और उस से निकालता है<sup>६</sup> ॥

यहोवा निर्धन करता है और धनी भी करता है

नीचा करता और ऊँचा भी करता है ॥

वह कङ्काल को धूल में से उठाता

(६) मूल में मैं ने इसे यहोवा का माँगा हुआ मान लिया ।

(७) मूल में यहोवा ही का माँगा हुआ ठहरें ।

(८) वा. काम उस से तीले जाते हैं ।

(९) मूल में और उस ने चढ़ाया ।

(१) मूल में कड़वी । (२) मूल में अपना दाखमधु अपने घर से दूर कर ।

(३) मूल में मैं ने अपना जीव यहोवा के साम्हने उखडेल दिया ।

(४) अर्थात् ईश्वर का सुना हुआ । (५) मूल में न चढ़ गई ।

- और दरिद्र को धरे पर से ऊंचा करता है  
कि उन को रईसों के संग बिठाए  
और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी करे  
क्योंकि पृथिवी के खंभे यहोवा के हैं  
और उस ने उन पर जगत को धरा है ॥  
वह अपने भक्तों के पांवों को संमाले रहेगा  
पर दुष्ट अन्धियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे  
क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा ॥  
यहोवा से भगड़नेहार चकनाचूर होंगे  
वह उन के विरुद्ध आकाश में बादल गरजाएगा  
यहोवा पृथिवी की छ्त्र तक न्याय करेगा  
और अपने राजा को बल देगा  
और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा ॥  
तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया और  
वह बालक एली याजक के साम्हने यहोवा की सेवा  
टहल करने लगा ॥  
एली के पुत्र तो ओल्ले थे वे यहोवा को न जानते थे ।  
और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई  
मनुष्य मेलबलि चढ़ाता तब याजक का सेवक मांस  
सिंभाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिये हुए  
आकर, उसे कड़ाही वा हांडी वा हंडे वा तसले के भीतर  
डालता था और जितना मांस कांटे में लग आता या  
उतना याजक आप लेता था । यों ही वे शीलो में सारे  
इस्त्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे ।  
और चर्बी जलाने से पहिले भी याजक का सेवक  
आकर मेलबलि चढ़ानेहारे से कहता था कि भूनने के  
लिये याजक को मांस दे, वह तुझ से सिंभाया हुआ  
गर्ही कच्चा ही मांस लेगा । और जब कोई उस से  
कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जायगी तब  
जितना तेरा जी चाह उतना ले लेना तब वह कहता  
था नहीं अभी दे नहीं तो मैं छीन लूंगा । सो उन  
जवानों का पाप यहोवा के लेखे बहुत भारी हुआ क्योंकि  
वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे ॥  
शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहिले हुए  
यहोवा के साम्हने सेवा टहल किया करता था । और  
उस की माता बरस बरस उस के लिये एक छोटा सा  
बागा बनाकर जब अपने पति के संग बरस बरस की  
मेलबलि चढ़ाने आती तब बागे को उस के पास लाया  
करती थी । और एली ने एल्काना और उस की स्त्री को  
आशीर्वाद देकर कहा यहोवा इस अर्पण किये हुए बालक  
की सन्ती जो उस को अर्पण किया गया है १ तुझ को

(१) मूल में इस भांति हुई वस्तु को सन्ती जो उस के भिक्षु च मंगी गई है ।

इस स्त्री से वंश दे । तब वे अपने यहां चले गये । और  
यहोवा ने हजा की सुधि ली और वह गर्भवती हो होकर  
तीन बेटे और दो बेटियाँ जनी । और शमूएल बालक  
यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया ॥

एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उस ने सुना  
कि मेरे पुत्र सारे इस्त्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं  
बरन मिलापवाले तंबू के द्वार पर सेवा करनेहारी स्त्रियों  
के संग कुकर्म भी करते हैं । तब उस ने उन से कहा  
तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो मैं तो इन सारे लोगों  
से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ । हे मेरे बेटो  
ऐसा न करो क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है  
वह अच्छा नहीं तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध  
करते हो । यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध  
करे तब तो परमेश्वर उस का न्याय करेगा पर यदि कोई  
मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उस के लिये कौन  
बिनती करेगा । तौभी उन्होंने ने अपने पिता की बात न  
मानी क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की  
थी । पर शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और  
मनुष्य दोनों उस से प्रसन्न रहते थे ॥

और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर  
उस से कहने लगा यहोवा यों कहता है कि जब तेरे  
मूलपुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में  
था तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रगट न हुआ था । और  
मैं ने उसे एस्त्राएल के सारे गोत्रों में से इस लिये चुन लिया  
था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे  
चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे साम्हने एपोद पहिना  
करे और मैं ने तेरे मूलपुरुष के घराने को इस्त्राएलियों  
के सारे हव्य दिये थे । सो मेरे मेलबलि और अन्नबलि  
जिन के मैं ने अपने धाम में चढ़ने की आज्ञा दी है उन्हें  
तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो और तू क्यों अपने  
पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है कि तुम  
लोग मेरी इस्त्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें ला  
खाके मांटे हो गये हो । इसलिये इस्त्राएल के परमेश्वर  
यहोवा की यह वाणी है कि मैं ने कहा तो था कि तेरा  
घराना और तेरे मूलपुरुष का घराना मेरे साम्हने सदा  
लों चला करेगा पर अब यहांवा की वाणी यह है कि यह  
बात मुझ से दूर हो क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उन  
का आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जानें वे छोटे समझे  
जाएंगे । सुन वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और  
तेरे मूलपुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा  
कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा न रहेगा । इस्त्राएल का

(२) यह वाणी ।

कितना ही कल्याण क्यों न हो तौभी तुम्हें मेरे धाम का दुःख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई बूढ़ा कमी न ३३  
 ३३ होगा । मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा पर तौभी तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और जितने मनुष्य तेरे घर में ३४  
 ३४ उत्पन्न होंगे वे सब जवानी ही में मरेंगे । और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होमी और पीनहास नाम तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी अर्थात् वे दोनों के दोनों एक ही ३५  
 ३५ दिन मरेंगे । और मैं अपने लिये एक विश्वासयोग्य याजक उहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा और मैं उस का घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा ३  
 ३६ और वह मेरे अभिषिक्त के साम्हने सब दिन चला फिरा करेगा । और जो कोई तेरे घराने में बच रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चान्दी के वा एक रोटी के लिये दण्डवत् करके कहेगा याजक के किसी काम में मुझे लगा कि मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले ॥

### ३. और वह बालक शमूएल एली के साम्हने यहोवा की सेवा टहल

करता था और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था १  
 १ दर्शन कम मिलता था । एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थीं और उसे न सूझ पड़ता था । उस समय जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक बुझा न था और शमूएल यहोवा के मन्दिर में जहां पर- ४  
 ४ मेश्वर का संदूक था लेटा था तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उस ने कहा क्या आज्ञा । तब उस ने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा तू ने तो मुझे पुकारा वह बोला मैं ने नहीं पुकारा फिर जा लेट रह ६  
 ६ धो वह जाकर लेट गया । तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा हे शमूएल । सो शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा तू ने तो मुझे पुकारा है उस ने कहा हे मेरे बेटे मैं ने नहीं पुकारा फिर जा ७  
 ७ लेट रह । उस समय लौ तो शमूएल यहोवा का पहचानता न था और यहोवा का वचन उस पर प्रगट न हुआ ८  
 ८ था । फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठके एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा तू ने तो मुझे पुकारा है । तब एली ने समझ लिया कि इस ९  
 ९ बालक को यहोवा ने पुकारा होगा । सो एली ने शमूएल से कहा जा लेट रह और यदि वह तुम्हें फिर पुकारे तो कहना कि हे यहोवा कह क्योंकि तेरा दास सुनता है १०  
 १० सो शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया । तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहिले की नाई शमूएल शमूएल

(१) मूल में मैं उस के लिये एक स्थिर घर बनाऊंगा ।

ऐसा पुकारा शमूएल ने कहा कह क्योंकि तेरा दास सुनता है । यहोवा ने शमूएल से कहा सुन मैं इस्राएल ११  
 ११ में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिस के सारे सुननेहार बड़े सत्ताटे में आ जाएंगे २ । उस दिन मैं एली के विरुद्ध १२  
 १२ वह सब पूरा करूंगा जो मैं ने उस के घराने के विषय में कहा है मैं आरम्भ करूंगा और अन्त भी कर दूंगा । मैं तो उस को यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस १३  
 १३ अधर्म का दण्ड जिसे तू जानता है तेरे घराने को सदा देता रहूंगा क्योंकि तेरे पुत्र आप स्थापित हुए हैं और तू ने उन्हें नहीं रोका । इस कारण मैं ने एली के घराने के १४  
 १४ विषय यह किरिया खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित्त न तो मेलबलि से कर्मी होगा न अन्नबलि से । तब शमूएल भोर लौ लेटा रहा और यहोवा के १५  
 १५ भवन के किवाड़ों को खोला । पर शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरता था । सो एली ने शमूएल १६  
 १६ को पुकार कर कहा हे मेरे बेटे शमूएल वह बोला क्या आज्ञा । उस ने कहा वह कौन सी बात है जो उस ने तुम्हें १७  
 १७ से कही उसी मुझ से न छिपा जो कुछ उस ने तुम्हें सं कहा हो यदि तू उस में से कुछ भी मुझ से छिपाए तो परमेश्वर तुम्हें वैसा ही बरन उस से मैं अधिक करे । सो शमूएल ने उस को सारे बातें कह सुनाई और कुछ १८  
 १८ न छिपा रक्खा । वह बोला वह तो यहोवा है जो कुछ वह भला जाने वही करे । फिर शमूएल बड़ा होता १९  
 १९ गया और यहोवा उस के संग रहा और उस की कोई बात निष्फल होने २ न दी । सो दान से ले बेशोवा २०  
 २० लौ रहनेहार सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिये ठहरा है । और यहोवा २१  
 २१ ने शीलो में फिर दर्शन दिया अर्थात् यहोवा ने अपने को शीलो में शमूएल पर प्रगट करके यहोवा का वचन सुनाया ॥

(पवित्र संदूक की बन्धुआई और लौटाया जाना)

### ४. और शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुँचा । और इस्राएली पलिशितियों से लड़ने को निकले और उन्हें ने तो एबेनेजेर के पास छावनी डाली और पलिशितियों ने अपने में छावनी डाली । तब पलिशितियों ने इस्राएल २ के विरुद्ध पांति बांधी और जब लड़ाई बढ गई तब इस्राएल पलिशितियों से हार गया और इन्होंने ने कोई चार हजार इस्राएली सेना के पुरुषों को खेत ही पर मार डाला । सो जब वे लोग छावनी में आये तब इस्राएल ३

(२) मूल में उस के दोनों कान सनसनायेंगे ।

(३) मूल में भूमि पर गिरने ।

के पुरनिये कहने लगे यहोवा ने आज हमें पलिशतियों से क्यों हराया दिया है आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मंगा लें आएं कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। सो लोगों ने शीलो में मेजकर वहां से करुवों के ऊपर विराजनेहारे सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र ४ धोम्री और पीनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल ६ से ललकार उठे कि भूमि गुंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिशतियों ने पूछा इत्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण होगा। तब उन्होंने ने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। ७ तब पलिशती डरकर कहने लगे उस छावनी में परमेश्वर आ गया है फिर उन्होंने ने कहा हाय हम पर ऐसी बात पहिले ८ न हुई थी। हाय हम पर ऐसे प्रतापी देवताओं के हाथ से हम को कौन बचायेगा ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्त्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली ९ थीं। हे पलिशतियो हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो न हो कि जैसे इन्नी तुम्हारे अधीन रहे हैं वैसे तुम उन के १० अधीन हो जाओ पुरुषार्थ करके लड़ो। सो पलिशती लड़े और इस्राएली हारके अपने अपने डेरे को भागे और ऐसा अत्यन्त संहार हुआ कि तीस हजार इस्राएली पैदल ११ खेत रहे। और परमेश्वर का संदूक ले लिया गया और एली के दोनों पुत्र धोम्री और पीनहास भी मारे गये। १२ तब एक विन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर उसी दिन कपड़े फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो में पहुंचा। १३ उस के आते समय एली जिस का मन परमेश्वर के संदूक का चिन्ता से थरथरा रहा था सो मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठ बाट जोह रहा था और ज्योंही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर यह समाचार दिया त्योंही सारा नगर १४ चिल्ला उठा। यह चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा ऐसे हुल्लाड़ मचने का क्या कारण है सो वह मनुष्य १५ भट जाकर एली को बताने लगा। एली तो अट्टानवे बरस का था और उस की आंखें धुन्धली पड़ गई थीं १६ और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना से आया हूँ और मैं सेना से आज भाग आया वह बोला हे मेरे बेटे क्या समाचार १७ है। उस समाचार देनेहारे ने उत्तर दिया कि इस्राएली पलिशतियों के साम्हने से भाग गये हैं और लोगों का बड़ा संहार भी हुआ और तेरे दो पुत्र धोम्री और पीनहास मारे गये और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया

है। ज्योंही उस ने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया १७ त्योंही पत्नी फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़े और भारी होने के कारण उस की गर्दन टूट गई और वह मर गया। उस ने तो इस्राएलियों का न्याय चालीस बरस किया था। उस की बहु पीनहास की १९ स्त्री गर्भवती और जनने पर थी सो जब उस ने परमेश्वर के संदूक के छीन लिये जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना तब उस को पीढ़ें उठीं और वह दुहर गई और जनी। उस के मरते मरते उन २० स्त्रियों ने जो उस के आस पास खड़ी थीं उस से कहा मत डर क्योंकि तू पुत्र जनी है पर उस ने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ सुरत लगाई। और परमेश्वर के संदूक २१ के छीन लिये जाने और अपने ससुर और पति के कारण उस ने यह कहकर उस बालक का नाम ईकाबीद रक्खा कि इस्राएल में से महिमा उठ गई। फिर उस ने कहा २२ इस्राएल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है ॥

#### ५. और पलिशतियों ने परमेश्वर का संदूक

एबेनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिशतियों ने परमेश्वर के संदूक को २ उठाकर दागोन के मन्दिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। बिहान को अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या ३ देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के साम्हने आँधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है सो उन्होंने ने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर बिहान को जब ४ वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के साम्हने आँधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेबड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं निदान दागोन का केवल धक्क समूचा रह गया। इस ५ कारण आज के दिन लों भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मन्दिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की डेबड़ी पर पांव नहीं धरते ॥

तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी ६ पड़ा और वह उन्हें नाश करने लगा और उस ने अशदोद और उस के आस पास के लोगों के गिलटियां निकालीं। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा ७ इस्राएल के देवता का संदूक हमारे साथ रहने न पाएगा क्योंकि उस का हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। सो उन्होंने ने पलिशतियों के ८ सब सरदारों को बुलवा मेजा और उन से पूछा हम इस्राएल के देवता के संदूक से क्या करें वे बोले इस्रा-

(१) अर्थात् महिमा जाती रही।

एल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुँचाया जाए, सो उन्होंने ने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुँचा दिया। जब वे उस को घुमाकर वहाँ पहुँचे उस के पीछे यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध उठा और उस में अत्यन्त बड़ी हलचल मची और उस ने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा कि उन के गिल-  
 १० टियां निकलने लगीं। सो उन्होंने ने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा और ज्योंही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुँचा त्योंही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इस लिये पहुँचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को  
 ११ मार डाले। सो उन्होंने ने पलिशितियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उन से कहा इस्राएल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और न हम को न हमारे लोगों को मार डाले। उस सारे नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहाँ बहुत भारी पड़ा था।  
 १२ और जो मनुष्य न मरे वे भी गिलटियों के मारे पड़े रहे सो नगर की चिल्लाहट आकाश लों पहुँची ॥

## ६. यहोवा का संदूक पलिशितियों के देश में सात महीने लों रहा।

१ तब पलिशितियों ने याजकों और भावी कहनेहारों को बुला कर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित्त देकर हम उसे उस के स्थान पर भेजें। वे बोले यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहाँ भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना उस की हानि भरने के लिये अवश्य ही दोषबलि देना तब तुम चंगे हो जाओगे और यह प्रगट होगा कि उस का हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने ने पूछा हम उस की हानि भरने के लिये कौन सा दोषबलि दें। वे बोले पलिशितियों के सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की पाँच गिलटियां और सोने के पाँच चूहे क्योंकि तुम  
 ५ सब और तुम्हारे सरदारों पर एक ही विपत्ति हुई। सो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नाश करने-हारे चूहों की भी मूर्तें बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो क्या जाने वह अपना हाथ तुम पर से  
 ६ और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करोगे जैसे मिश्रियों और फिरीन ने अपने मन हठीले कर दिये थे जब उस ने उन के बीच अपनी इच्छा पूरी की तब क्या उन्होंने ने उन को  
 ७ जाने न दिया और क्या वे चले न गये। सो अब तुम एक

(१) सूत्र में अब ।

नई गाड़ी और ऐसी दो दुधार गायें लो जो जाए तले न आई हो और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उन के बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर गाड़ी पर धर दो और सोने की जो वस्तुएं तुम उस की हानि भरने के लिये दोषबलि की रीति से दोगे उन्हें दूसरे संदूक में धरके उस के पास में रख दो फिर उसे छोड़ कर चली जाने दो। तब देखते रहे और यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेतशोमेश को चले तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई और नहीं तो हम को निश्चय होगा कि यह मार हम पर उस की ओर से नहीं संयोग ही से हुई। सो उन मनुष्यों ने वैसे ही किया अर्थात् दो दुधार गायें लेकर उस गाड़ी में जोतीं और उन के बच्चों को घर में बन्द कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेतशोमेश का सीधा मार्ग लिया वे सड़क ही सड़क बम्बाती हुई चली गईं और न दहिने मुड़ीं न बायें और पलिशितियों के सरदार उन के पीछे पीछे बेतशोमेश के सिवाने लों गये। और बेतशोमेश के लोग तराई में गेहूँ काट रहे थे और जब उन्होंने न आखें उठाकर संदूक को देखा तब उस के देखने से आनन्दित हुए। और गाड़ी यहोशू नाम एक बेतशोमेशी के खेत में जाकर वहाँ ठहर गई जहाँ एक बड़ा पत्थर था तब उन्होंने ने गाड़ी की लकड़ी को चीर गायों को होमबलि करके यहोवा के लिये चढ़ाया। और लेवीयों ने यहोवा का संदूक उस संदूक समेत जो साथ था जिस में सोने की वस्तुएं थीं उतारके उस बड़े पत्थर पर धर दिया और बेतशोमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिये होमबलि और मेलबलि चढ़ाये। यह देखकर पलिशितियों के पाँचों सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गये ॥

जो सोने की गिलटियां पलिशितियों ने यहोवा की हानि भरने के लिये दोषबलि करके दे दीं उन में से एक तो अशदोद की ओर से एक अज्जा एक अश्कलोन एक गत और एक एक्रोन की ओर से दी गईं। और सोने के चूहे क्या शहरपनाहवाले नगर क्या बिना शहरपनाह के गांव बरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक धर गया पलिशितियों के पाँचों सरदारों के वहाँ तक के भी अधिकार की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिये गये। वह पत्थर तो आज लों बेतशोमेशी यहोशू के खेत में है। फिर इस कारण से कि बेतशोमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर देखा उस ने उन में से सत्तर मनुष्य और फिर पचास हजार मनुष्य

मारे सौ लोगों ने इसलिये विलाप किया कि यहोवा  
 २० ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था । सौ बेतशेमेश के  
 लोग कहने लगे इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के साम्हने  
 कौन खड़ा रह सकता है और वह हमारे पास से किस  
 २१ के पास चला जाए । तब उन्हों ने किर्यत्थारीम के निवा-  
 सियों के पास यों कहने को दूत भेजे कि पलिशित्यों ने  
 यहोवा का संदूक लौटा दिया है सो तुम आकर उसे अपने  
 १ पास ले जाओ । सो किर्यत्थारीम के लोगों ने जाकर  
 ११ यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के  
 घर में जो टीले पर बना था रक्खा और यहोवा के संदूक  
 की रक्षा करने के लिये अबीनादाब के पुत्र एलाजार को  
 पवित्र किया ॥

(शमूएल नबी और न्यायी के कार्य)

२ किर्यत्थारीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए  
 अर्थात् बीस बरस बीत गये और इस्राएल का सारा बराना  
 ३ विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा । तब  
 शमूएल ने इस्राएल के सारे बराने से कहा यदि तुम  
 अपने सारे मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो बिराने  
 देवताओं और अशतारेत देवियों को अपने बीच से दूर  
 करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल  
 उमी की उपासना करो तब वह तुम्हें पलिशित्यों के हाथ  
 ४ से छुड़ाएगा । सो इस्राएलियों ने बाल देवताओं और  
 अशतारेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा की  
 उपासना करने लगे ॥  
 ५ फिर शमूएल ने कहा सब इस्राएलियों को मिस्रा  
 में इकट्ठे करो और मैं तुम्हारे लिये यहोवा से प्रार्थना  
 ६ करूंगा । सो वे मिस्रा में इकट्ठे हुए और जल भर के  
 यहोवा के साम्हने उठे दिया और उस दिन उपवास  
 करके वहां कहा कि हम ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया  
 है । और शमूएल ने मिस्रा में इस्राएलियों का न्याय  
 ७ किया । जब पलिशित्यों ने सुना कि इस्राएली मिस्रा में  
 इकट्ठे हुए हैं तब उन के सरदारों ने इस्राएलियों पर  
 चढ़ाई की यह सुनकर इस्राएलियों ने पलिशित्यों से  
 ८ भय खाया । और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा हमारे  
 लिये हमारे परमेश्वर यहोवा की देहाई देना न छोड़ कि  
 ९ वह हम को पलिशित्यों के हाथ से बचाए । सो शमूएल  
 ने एक दूधपिउवा मेसा ले मर्ग होमबलि करके यहोवा  
 को चढ़ाया और शमूएल ने इस्राएलियों के लिये यहोवा  
 की देहाई दी और यहोवा ने उस की सुन ली ।  
 १० शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था कि पलिशती इस्राए-  
 लियों के संग लड़ने को निकट आ गये तब उसी दिन  
 यहोवा ने पलिशित्यों के ऊपर बादल को बड़े जोर से

गरजाकर उन्हें बबरा दिया सो वे इस्राएलियों से दूर  
 गये । तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्रा से निकलकर पाल- ११  
 श्रित्यों की खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे लों मारते  
 चले गये । तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्रा १२  
 और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उस  
 का नाम एबेनेजेर<sup>१</sup> रक्खा कि यहां लों तो यहोवा  
 ने हमारी सहायता की है । सो पलिशती दब गये और १३  
 इस्राएलियों के देश में फिर न आये और शमूएल के  
 जीवन भर यहोवा का हाथ पलिशित्यों के विरुद्ध बना  
 रहा । और एक्रान और गत लों जितने नगर पलिशित्यों १४  
 ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिये वे वे फिर इस्राए-  
 लियों के वश में आये और उन का देश भी इस्राएलियों  
 ने पलिशित्यों के हाथ से छुड़ाया । और इस्राएलियों  
 और एमोरियों के बीच भी सन्धि हो गई । और शमूएल १५  
 जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा । वह बरस १६  
 बरस बेतेल और गिलगाल और मिस्रा में घूम घूमकर  
 उन सारे स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता  
 था । तब वह रामा में जहाँ उस का घर था १७  
 लौट आया और वहां भी इस्राएलियों का न्याय करता  
 था और वहां उस ने यहोवा के लिये एक वेदी बनाई ॥

(शाऊल को राजपद मिलना)

८. जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उस ने

अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर  
 न्यायी ठहराया । उस के जेठे पुत्र का नाम योएल और २  
 दूसरे का नाम अबिय्याह था ये बेशोबा में न्याय करते थे ।  
 पर उस के पुत्र उस को सी चाल न चलो अर्थात् लाजब ३  
 में आकर<sup>२</sup> घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे ॥

सो सब इस्राएली पुरनिये इकट्ठे होकर रामा में शमू- ४  
 एल के पास जाकर, उस से कहने लगे सुन तू तो बूढ़ा हुआ ५  
 और तेरे पुत्र तेरी सी चाल नहीं चलते अब हम पर न्याय  
 करने के लिये सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे  
 ऊपर राजा ठहरा दे । जो बात उन्हों ने कहा कि हम पर ६  
 न्याय करने के लिये हमारे ऊपर राजा ठहरा यह बात  
 शमूएल को बुरी लगी सो शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना  
 की । यहोवा ने शमूएल से कहा वे लोग जो कुछ तुम्ह ७  
 से कहें उसे सुन ले क्योंकि उन्हों ने तुम्ह को नहीं मुझी  
 को निकम्मा जाना कि मैं उन पर राज्य न करू । जैसे ८  
 जैसे काम वे उस दिन से ले जब मैं ने उन्हें मिस्र से  
 निकाला था आज के दिन लों करते आये हैं कि मुझ  
 का त्यागकर पराये देवताओं की उपासना करते हैं वैसे

(१) अर्थात् सहायता का पत्थर ।

(२) मूल में लालच के पीछे मुझके ।

- ९ ही वे तुझ से भी करते हैं । सो अब उन की बात मान पर उन्हें हठता से चित्त कर उस राजा की चाल बतला दे जो उन पर राज्य करेगा ॥
- १० सो शमूएल ने उन लोगों को जो उस से राजा चाहते थे यहोवा की सारी बातें कह सुनाई । और उस ने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उस की यह चाल होगी अर्थात् वह तुम्हारे पुत्रों की लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर ठहराएगा और वे उस के रथों के
- ११ आगे आगे दौड़ा करेंगे । फिर वह हजार हजार और पचास पचास के प्रधान कर लेगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और
- १२ अपने युद्ध और रथों के हथियार बनवाएगा । फिर वह तुम्हारी बैटियों को लेकर उन से सुगन्धद्रव्य और रसोई
- १३ और रोटियाँ बनवाएगा । फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जलपाई की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी हों उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा ।
- १४ फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का दसवां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा ।
- १५ फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गदहों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा । वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी दसवां
- १६ अंश लेगा निदान तुम लोग उस के दास बन जाओगे । और उस समय तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण हाय हाय करोगे पर यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा ।
- १७ तौभी उन लोगों ने शमूएल की बात मानने से नाह करके कहा नहीं हम निश्चय अपने ऊपर राजा ठहरवाएंगे,
- १८ इसलिये कि हम भी और सब जातियों के समान हो जाएँ और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से लड़ाई किया करे ।
- १९ लोगों की ये सारी बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कान में कह सुनाई । यहोवा ने शमूएल से कहा उन की बात मान कर उन के लिये राजा ठहरा दे । सो शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों से कहा तुम अपने अपने नगर को चल जाओ ॥

## ९. विन्यामीन के गोत्र का कीश नाम एक

- पुरुष था जो अपीह के पुत्र बफोरत का परपोता सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था । वह एक विन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा धनी पुरुष था । उस के शाऊल नाम एक जवान पुत्र था जो सुन्दर था और इस्राएलियों में कोई उस से बढ़कर सुन्दर न था वह इतना लम्बा था कि दूसरे लोग उस के कांधे ही लों होते थे । जब शाऊल के पिता कीश की गदहियाँ

खो गईं तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा एक सेवक को अपने साथ ले जाकर गदहियों को ढूँढ़ ला । सो वह एप्रैम के पहाड़ों देश और शलीशा देश होते हुए गया पर उन्हें न पाया तब वे शलीम नाम देश भी होकर गये और वहाँ भी न पाया फिर विन्यामीन के देश में गये पर गदहियाँ न मिलीं । जब वे सूर नाम देश में आये तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा आ हम लौट चले न हो कि मेरा पिता गदहियों की चिन्ता छोड़कर हमारी चिन्ता करने लगे । उस ने उस से कहा सुन उस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिस का बड़ा आदरमान होता है और जो कुछ वह कहता वह हुए बिना नहीं रहता अब हम उधर चले क्या जाने वह हम को हमारा मार्ग बताए कि किर जाएँ । शाऊल ने अपने सेवक से कहा सुन यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उस के लिये क्या ले चले देख हमारी पैलियों में की रोटी लुक गई और भेंट के योग्य कोई वस्तु नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें हमारे पास क्या है । सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो एक शेकेल चान्दा की चौथाई है वही मैं परमेश्वर के जन को दूँगा कि वह हम को बताए कि किर जाएँ । अगले समय में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था कि चलो हम दर्शा के पास चले क्योंकि जो आजकल नहीं कहलाता है वह अगले समय दर्शा कहलाता था । सो शाऊल ने अपने सेवक से कहा तू ने भला कहा है हम चले सो वे उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ने समय उन्हें कई एक लड़कियाँ मिलीं जो पानी भरने को निकली थीं सो उन्होंने उन से पूछा क्या दर्शा यहाँ है । उन्होंने ने उत्तर दिया कि है देखो वह तुम्हारे आगे है अब फुर्ती करो आज ऊँचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है इसलिये वह आज नगर में आया है । ज्योंही तुम नगर में पहुँचो त्योंही वह तुम को ऊँचे स्थान पर खाने को जाने से पहिले मिलेगा क्योंकि जब लों वह न पहुँचे तब लों लोग भोजन न करेंगे इसलिये कि यज्ञ के विषय बड़ी धन्यवाद करता उस के पीछे ही न्योतहगी भोजन करते हैं सो तुम अभी चढ़ जाओ इसी बेला वह तुम्हें मिलेगा । सो वे नगर में चढ़ गये और ज्योंही नगर के भीतर पहुँच गये त्योंही शमूएल ऊँचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उन के साम्हन आ रहा था ॥

शाऊल के आने से एक दिन पहिले यहोवा ने शमूएल को यह चिन्ता रखला था कि, कल इसी समय

(१) मूल में शमूएल का कान खाला ।

मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा  
 उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने को  
 अभिषेक करना और वह मेरी प्रजा को पलिशितियों के हाथ  
 से छुड़ाएगा क्योंकि मैं ने अपनी प्रजा पर कृपादृष्टि की  
 १७ है इसलिये कि उस की चिन्ताहट मेरे पास पहुंची है । फिर  
 जब शाऊल शमूएल को देख पड़ा तब यहोवा ने उस  
 से कहा जिस पुरुष की चर्चा मैं ने तुझ से की थी वह यही  
 १८ है मेरी प्रजा पर यही अधिकार जमाएगा । तब शाऊल  
 फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा मुझे  
 १९ बता कि दर्शों का घर कहाँ है । उस ने कहा दर्शों तो मैं  
 हूँ मेरे आगे आगे ऊँचे स्थान पर चढ़ जा आज मेरे साथ  
 तुम्हारा भोजन होगा और बिहान को जो कुछ तेरे मन  
 २० में हो उसे मैं तुम्हें बताकर बिदा करूँगा । और तेरी  
 गदहियाँ जो तीन दिन हुए खो गई थीं उन की कुछ  
 चिन्ता न कर क्योंकि वे मिल गईं और इस्राएल में जो  
 कुछ मनभाऊ है वह किस का है क्या वह तेरा और तेरे  
 २१ पिता के सारे घराने का नहीं है । शाऊल ने उत्तर देकर  
 कहा क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात् सब इस्राएली गोत्रों में  
 से छोटे गोत्र का नहीं हूँ और क्या मेरा कुल बिन्यामीन  
 के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है सो तू मुझ से  
 २२ ऐसा बात क्यों कहता है । तब शमूएल ने शाऊल और  
 उस के सेवक को ले काँठरी में पहुंचाकर न्यांतदगी जो  
 कोई तीस जन थे उन की पाँति के सिरे पर बैठा दिया ।  
 २३ फिर शमूएल ने रसोइये से कहा जो टुकड़ा मैं ने तुम्हें  
 देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ ।  
 २४ सो रसोइये ने जाँघ को मांस समेत उठाकर शाऊल के  
 आगे धर दिया तब शमूएल ने कहा जं रक्खा गया था  
 उसे देख और अपने साम्हने धरके खा क्योंकि वह तेरे  
 लिये इसी नियत समय लो जिस की चर्चा करके मैं ने  
 लोगों को न्यांत दिया रक्खा हुआ है । सो शाऊल ने  
 २५ उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया । तब वे ऊँचे  
 स्थान से उतर कर नगर में आये और उम में घर की  
 २६ छत पर शाऊल से बातें कीं । बिहान को वे तड़के उठे  
 और पह फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर  
 बुला कर कहा उठ मैं तुम्हें को बिदा करूँगा सो शाऊल  
 उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गये ।  
 २७ नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने  
 शाऊल से कहा अपने सेवक को हम से आगे बढ़ने की  
 आज्ञा दे (सो वह बढ़ गया) पर तू अभी ठहरा रह मैं  
 १ १० तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाऊँगा । तब शमूएल  
 ने एक कुप्पी तेल लेकर उस के चिर पर उंडेला  
 और उस चूमकर कहा क्या इस का कारण यह नहीं कि

यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा  
 अभिषेक किया है । आज जब तू मेरे पास से चला २  
 जाएगा तब राहेल की कबर के पास जो बिन्यामीन के देश  
 के सिवाने पर सेलसह में है दो जन तुम्हें मिलेंगे और  
 कहेंगे कि जिन गदहियों को तू दूँदने गया था वे मिली हैं  
 और मुन तेरा पिता गदहियों की चिन्ता छोड़कर तुम्हारे  
 कारण कुलता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिये  
 क्या करूँ । फिर वहाँ से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के ३  
 बाँजवृक्ष के पास पहुंचेगा तब वहाँ तीन जन परमेश्वर  
 के पाम बेतेल को जाते हुए तुम्हें मिलेंगे जिन में से एक  
 तो बकरी के तीन बच्चों और दूसरा तीन रोटी और तीसरा  
 एक कुप्पा दाखमधु लिये हुए होगा । और वे तेरा कुशल ४  
 पूछेंगे और तुम्हें दो रोटी देंगे और तू उन्हें उन के हाथ  
 से ले लेना । इस के पीछे तू गिबा में पहुंचेगा जो परम- ५  
 श्वर का कहावता है जहाँ पलिशितियों की चौकी है और  
 जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे तब अपने आगे आगे  
 सितार डफ बाँसुली और बीणा बजवाते और नबूवत  
 करते हुए नबियों का एक दल ऊँचे स्थान से उतरता ६  
 हुआ तुम्हें मिलेगा । तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल  
 से उतरेगा और तू उन के साथ होकर नबूवत करने  
 लगेगा और बदलकर और ही मनुष्य हो जाएगा । और ७  
 जब ये चिन्ह तुम्हें देख पड़ेंगे तब जो काम करने का  
 अवसर तुम्हें मिले उस में लग जाना क्योंकि परमेश्वर  
 तेरे संग रहेगा । और तू मुझ से पहिले गिलगल को ८  
 जाना और मैं होमबलि और मलबलि चढ़ाने के लिये  
 तेरे पास आऊँगा तू सात दिन लो मेरी बाट जोहते  
 रहना तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें ९  
 को क्या क्या करना है । ज्योंही उस ने शमूएल के पास  
 से जाने को पीठ फेरी त्योंही परमेश्वर ने उस का मन  
 बदल दिया और वे सब चिन्ह उसी दिन हुए ॥

जब वे गिबा में पहुंच गये तब नबियों का एक १०  
 दल उस को मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर  
 बल से उतरा और वह उन के बीच नबूवत करने लगा ।  
 जब उन समों ने जो उसे पहिले से जानते थे यह देखा ११  
 कि वह नबियों के बीच नबूवत कर रहा है तब आपस  
 में कहने लगे कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ क्या  
 शाऊल भी नबियों में का है । वहाँ के एक मनुष्य ने १२  
 उत्तर दिया भला उन का बाप कौन है इस पर यह कहा-  
 वत चलने लगी कि क्या शाऊल भी नबियों में का है ।  
 जब वह नबूवत कर चुका तब ऊँचे स्थान पर गया ॥ १३

(१) वा तू परमेश्वर की पहाड़ी को पहुंचेगा ।

(२) वा पहाड़ी ।



- १४ तब शाऊल के चचा ने उस से और उस के सेवक से पूछा कि तुम कहां गये थे उस ने कहा हम तां गदहियों को ढूढ़ने गये थे और जब हम ने देखा कि वे कहीं नहीं मिलतीं तब शमूएल के पास गये । शाऊल के चचा ने कहा मुझे बतला दे कि शमूएल ने तुम से क्या १५ कहा । शाऊल ने अपने चचा से कहा कि उस ने हमें निश्चय करके बतलाया कि गदहियां मिल गईं पर जो बात शमूएल ने राज्य के विषय कही थीं सो उस ने उस का न बताई ॥
- १७ तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्र में यहोवा के पास बुलवाया । तब उस ने इस्राएलियों से कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुम को मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो १९ तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है । पर तुम ने आज अपने परमेश्वर को जो सारी विन्यायों और कथों से दुम्हारा छुड़ानेवा है तुच्छ जाना और उस से कहा है कि हम पर राजा ठहरा दे । सो अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के साम्हने खड़े हो जाओ ।
- २० तब शमूएल सारे इस्राएली गोत्रियों को समीप लाया २१ और चिट्टा विन्यामीन के नाम पर निकली । तब वह विन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्टी मन्त्री के कुल के नाम पर निकली फिर चिट्टी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली और जब वह २२ खोजा गया तब न मिला । सो उन्होंने फिर यहोवा से पूछा क्या यहाँ कोई और आनेवाला है यहोवा ने कहा हां २३ सुनो वह सामान के बीच छिपा हुआ है । तब वे दौड़कर उसे वहाँ से लाये और वह लोगों के बीच खड़ा हुआ और वह काँधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था ।
- २४ शमूएल ने सब लोगों से कहा क्या तुम ने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उस के बराबर नहीं तब सब लोग ललका के बोल उठे राजा जीता रहे ॥
- २५ तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया । और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर २६ जाने का विदा किया । और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया और उस के साथ एक दल भी गया जिन के

मन को परमेश्वर ने उभारा था । पर कई ओछे लोगों ने कहा यह जन हमारा क्या उदार करेगा और उन्हीं ने उस को तुच्छ जाना और उस के पास भेंट न लाये तीर्थां वह सुना अनसुनी करके चुप रहा ॥

(अम्मोनियों पर शाऊल की जय)

## ११. तब अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई करके

गिलाद के यावेश के विरुद्ध छावनी डाली सो यावेश के सब पुरुषों ने नाहाश से कहा हम से वाचा बाध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे । अम्मोनी नाहाश ने उन से कहा मैं तुम से वाचा इस शर्त पर शान्धंगा कि मैं तुम सभी की दहिनी आंखें फोड़कर इसे धारे इस्राएल की नामधराई का कारण कर दूँ । यावेश के पुरनियों ने उस से कहा हमें सात दिन का अवकाश दे तब तां हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे और यदि हम को कोई बचानेवा न मिले तो हम तेरे पास निकल आएंगे । दूतों ने शाऊलवाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया और सब लोग चिन्ता चिन्ता कर रोने लगे । तब शाऊल दार के पीछे पीछे मैदान से चला आया और शाऊल ने पूछा लोगों का क्या हुआ कि वे रोते हैं सो यावेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया गया, यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उस का कोप बहुत भड़क उठा । सो उस ने एक जोड़ी बैल लेकर टुकड़ टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में भेज दिये कि जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न हाँ ले उस के बैल से यों हाँ किया जाएगा तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकले । तब उस ने उन्हें बेजेक में गिन लिया और इस्राएलियों के तीन लाख और यहूदियों के तीस हजार ठहरे । और उन्हां ने उन दूतों से जो आये थे कहा तुम गिलाद में के यावेश के लोग से या कहा कि कल जिस समय घाम कड़ा होगा तब छुटारा पाओगे सो दूतों ने जाकर यावेश के लोगों को संदेश दिया और वे आनन्दत हुए । सो यावेश के लोगों ने कहा कल हम तुम्हारे पास निकल जाएंगे और जो कुल तुम को अच्छा लग वहाँ हम से करना । दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के तीन दल किये और उन्हां ने रात के पिछले पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा और घाम के कड़े होने के समय लो ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे

(१) मूल में विन्यामीन का गोत्र लिखा गया ।

(२) मूल में मन्त्री का कुल लिखा गया । (३) मूल में कीश का पुत्र शाऊल लिखा गया । (४) मूल में ऊपर । (५) मूल में सब लोग उस के काँधे लों थे ।

(६) मूल में वह बहिरा सा हो गया ।

(७) मूल में एक पुरुष के समान ।

यहां लो तितर बितर हुए कि दो जन एक संग कहीं न रहे । तब लोग शमूएल से कहने लगे जिन मनुष्यों ने कहा था कि क्या शाऊल हम पर राज्य करे उन को लाओ १२ कि हम उन्हें मार डालें । शाऊल ने कहा आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है ॥

(सभा में शमूएल का उपदेश)

१४ तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा आओ हम गिलगाल को चले और यहां राज्य को नये सिरे से स्थापित करें । सो सब लोग गिलगाल को चले और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के साम्हने शाऊल को राजा बनाया और वही उन्होंने यहोवा का मेलबलि चढाये और वही शाऊल और सब इस्राएली लोगो ने अत्यन्त आनन्द किया ॥

१२. तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से

कहा सुनो जो कुछ तुम ने मुझ ने कहा था उसे मानकर मैं ने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है । और अब देखो वह राजा तुम्हारे साम्हने काम करता है और मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल पक गये हैं और मेरे पुत्र तुम्हारे पाम हैं और मैं लड़कपन से लेकर आज लो तुम्हारे साम्हने काम करता रहा हूँ । मैं हाजिर हूँ तुम यहोवा के साम्हने और उस के अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो कि मैं ने किस का बेल ले लिया वा किस का गदहा ले लिया वा किस पर अंधेर किया वा किस को पीसा वा किस के हाथ से अपनी आंखें बन्द करने के लिये घूस लिया वताओ और मैं वह तुम को फेर दूंगा । वे बोले तू ने न तो हम पर अंधेर किया न हमें पीसा और न किसी के हाथ से कुछ लिया है । उस ने उन से कहा आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उस का अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला वे बोले हां बह माक्षी है । फिर शमूएल लोगों से कहने लगा जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पितरों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा है । सो अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के साम्हने उस के सारे धर्मों के कामों के विषय जिन्हें उस ने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पितरों के साथ किया है तुम्हारे साथ बिचार करूंगा । याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पितरों ने यहोवा की दोहाई दी तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने ने

तुम्हारे पितरों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया । फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा के मूल गये तब उस ने हासोर के सेनापति सीसरा और पलिश्रियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया और वे उन से लड़े । तब उन्होंने यहोवा की दोहाई देकर कहा हमने यहोवा को त्यागकर और बाल देवताओं और अशुतेरेत देवियों की उपासना करके पाप किया तो है पर अब तू हम को हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा तब हम तेरो उपासना करेंगे । सो यहोवा ने यरब्बाल बदान यितह और शमूएल को भेजकर तुम को तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे । पर जब तुम ने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था तभी तुम ने मुझ से कहा नहीं हम पर एक राजा राज्य करेगा । अब उस राजा को देखो जिसे तुम ने चुन लिया और जिस के लिये तुम ने प्रार्थना की थी देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर कर दिया है । यदि तुम यहोवा का भय मानते उस की उपासना करते और उस की बात सुनते रहे और यहोवा की आज्ञा टाल उस से बलवा न करो और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलनेहार हो यह तो मला होगा । पर यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उस से बलवा करो तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध होगा । अब खड़े रहे और एक बड़ा काम देखो जो यहोवा तुम्हारी आंखों के साम्हने करने पर है । आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह बादल गरजाएगा और मेंह बरसाएगा तब तुम जानोगे और देखोगे कि हम ने राजा मांगकर यहोवा के लेखे बहुत बुराई की है । सो शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन बादल गरजाया और मेंह बरसाया और सब लोग यहोवा से और शमूएल से निपट डर गये । सो सब लोगों ने शमूएल से कहा अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं हम ने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है । शमूएल ने लोगों से कहा डरो मत तुम ने तो यह सारी बुराई की है पर अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुझे अपने सारे मन से उस की उपासना करो । और मत मुझे नहीं तो ऐसी

(१) मूल में तुम्हारे साम्हने चल फिर रहा है । (२) मूल में हमारे साम्हने चलता फिरता ।

(१) मूल में के हाथ बंध डाला ।

व्यर्थ घस्तुओं के पीछे चलेगे जिन से न कुछ लाभ न कुछ छुटकारा हो सकता है क्योंकि वे व्यर्थ ही हैं ।  
 २२ यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न त्यागेगा क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से  
 २३ अपनी प्रजा बनाया है । फिर यह मुझ से दूर हो कि मैं तुम्हारे लिये प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरे मैं तो तुम्हें अन्धा और भीधा मार्ग दिखाता  
 २४ रहूँगा । इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सन्नाह से अपने सार मन के साथ उस की उपासना करो और यह सोचो कि उस ने हमारे लिये कैसे  
 २५ बड़े बड़े काम किये हैं । पर यदि तुम बुराई करते ही रहो तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे ॥  
 (शाऊल राजा का पहिला अपराध और उस का फल)

### १३. शाऊल' बरस का होकर राज्य करने लगा और उस ने

२ इस्राएलियों पर दो<sup>१</sup> बरस लों राज्य किया । और शाऊल ने इस्राएलियों में से तीन हजार पुरुषों को चुन लिया और उन में से दो हजार शाऊल के साथ मिकमाश में और बेनेल के पहाड़ पर रहे और एक हजार योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उस ने अपने अपने खेरे जाने को बिदा  
 ३ किया । तब योनातान ने पलिशतियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार्ग लिया और इस का समाचार पलिशतियों के कान पड़ा तब शाऊल ने सारे देश में नरसिमा  
 ४ फूंकवाकर यह कहला भेजा कि इसी लोग मुझे । और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिशतियों की चौकी को मारा है और यह भी कि पलिशती इस्राएल से घिन करने लगे हैं सो लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गये ॥  
 ५ और पलिशती इस्राएल से लड़ने को इकट्ठे हो गये अर्थात् तीस हजार रथ और छः हजार सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनारों के समान बहुत ने लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन की पूरब ओर जा मिकमाश में छावनी  
 ६ डाली । जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं (और सचमुच लोग संकट में पड़े थे) तब वे लोग गुफाओं भाड़ियों दांगों गडियों और गड़हों में जा छिपे ।  
 ७ और कितने इसी यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गये पर शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग धरधराते हुए उस के पीछे हो लिये ॥

(१) जान पकता है कि यहाँ कोई संख्या छूट गई है ।

(२) जान पकता है कि दो से अधिक कोई संख्या यहाँ छूट गई है यथा बत्तीस ब्यालीस इत्यादि ।

वह शमूएल के ठहराये हुए समय अर्थात् सात दिन लों बाट जोहता रहा पर शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उस के पास से इधर उधर होने लगे । तब शाऊल ने कहा होमबलि और मेलबलि मेरे पास लाओ तब उस ने होमबलि का चढ़ाया । ज्योंही वह होमबलि को चढ़ा चुका त्योंही शमूएल आ गया और शाऊल उस से मिलने और नमस्कार करने को निकला । शमूएल ने पूछा तूने क्या किया शाऊल ने कहा जब मैं ने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराये हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिशती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैं ने सोचा कि पलिशती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैं ने यहोवा से बिनती नहीं की सो मैं ने अपनी इच्छा न रहते भी होमबलि चढ़ाया । शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है तू ने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता । पर अब तेरा राज्य बना न रहेगा यहोवा ने अपने लिये एक ऐसे पुरुष को ढूँढ लिया है जो उस के मन के अनुसार है और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है क्योंकि तू ने यहोव की आज्ञा को नहीं माना ॥

तब शमूएल चल दिया और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया और शाऊल ने अपने साथ क लोगों को गिनकर कई छः सी पाये । और शाऊल और उस का पुत्र योनातान और जो लोग उन के साथ थे वे बिन्यामीन के गिबा में रहे और पलिशती मिकमाश में डेरे डाले रहे । और पलिशतियों की छावनी से नाश करने-हारे तीन गोल बांधकर निकले एक गोल ने शूआल नाम देश की ओर फिरके ओप्रा का मार्ग लिया । एक और गोल ने मुड़कर बेथेरोन का मार्ग लिया और एक और गोल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सर्वाईम नाम तराई की ओर जंगल का तराई है ॥

और इस्राएल के सारे देश में लोहार कहीं न मिलता था क्योंकि पलिशतियों ने कहा था कि इसी तलवार वा भाला बनाने न पाएँ । सो मारे इस्राएल अपने अपने हल को नसी और फाल और कुल्हाड़ी और हंसुआ पैना करने के लिये पलिशतियों के पास जाते थे । और उन के हंसुओं फालों खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें मोंथी रहीं । सो कुछ के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी न भाला न केवल शाऊल और उस के पुत्र योनातान के पास रहे । और

पल्लितियों की चौकी के निपाठी निकल कर मिकमाश की बाटा पर ठहरे ॥

(योनातान की जय और शाऊल का बठ)

१४. एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोनेहारे जवान से कहा आ हम उधर १ पल्लितियों की चौकी के पास चलें। शाऊल तो गिवा के सिरे पर मिग्रोन में के अनार के पेड़ तले टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई लुः सौ थे। और एली जो शीलो में यहोवा का याजक था उस के पुत्र पीनहास का पोता और ईकाबोद के भाई अहीतब का पुत्र अहिव्याह भी एपीद पहिने हुए संग था। पर उन लोगों को ४ मालूम न था कि योनातान चला गया है। उन बाटियों के बीच जिन से होकर योनातान पल्लितियों की चौकी को जाना चाहता था दोनों अलंगों पर एक एक नोकोली चटान थी एक चटान का नाम तो बोसेस और ५ दूसरी का नाम सेने था। एक चटान तो उत्तर की ओर मिकमाश के साम्हने और दूसरी दक्खिन की ओर गिवा के साम्हने खड़ी है। सो योनातान ने अपने हथियार ढोनेहारे जवान से कहा आ हम उन खतनारहित लोगों की चौकी के पास जाएं क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा ७ दे। उस के हथियार ढोनेहारे ने उस से कहा जो कुछ तेरे मन में हो वही कर उधर चल मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा सुन हम ९ उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएँ। यदि वे हम से यो कहें कि हमारे आने लो ठहरे रहे तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उन के पास न चढ़ें। १० पर यदि वे यह कहें कि हमारे पास चढ़ आओ तो हम यह जानकर चढ़ें कि यहोवा उन्हें हमारे हाथ कर देगा ११ हमारे लिये यही चिन्ह हो। सो उन दोनों ने अपने को पल्लितियों की चौकी पर प्रगट किया तब पल्लितों कइने लगे देखो इन्नों लोग उन विलों में से जहां वे छिप रहे थे निकले आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उस के हथियार ढोनेहारे से पुकार के कहा हमारे पास चढ़ आओ तब हम तुम को कुछ सिखाएंगे सो योनातान ने अपने हथियार ढोनेहारे से कहा मेरे पीछे पीछे चढ़ आ क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ १२ में कर देगा। सो योनातान अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उस का हथियार ढोनेहारा भी उस के पीछे पीछे चढ़ गया और पल्लितों योनातान के साम्हने

गिबते गये और उस का हथियार ढोनेहारा उस के पीछे पाछे उन्हें मारना गया। यह पहिला संहार जो योनातान १४ और उस के हथियार ढोनेहारे से हुआ उस में आधे बीघे भूमि में बांस एक पुरुष मारे गये। और छावनी में १५ और मैदान पर और उन सारे लोगों में थरथराहट हुई और चौकीवाले और नाश करनेहारे भी थरथराने लगे और भुईहोल भी हुआ सो अत्यन्त बड़ी थरथराहट हुई। और बिन्यामीन के गिवा में शाऊल के पहरकों १६ ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती जाती है और वे लोग इधर उधर चले जाते हैं ॥

तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा अपनी १७ गिनती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है उन्होंने ने गिनकर देखा कि योनातान और उस का हथियार ढोनेहारा यहां नहीं हैं। सो शाऊल ने अहिव्याह से कहा १८ परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय तो परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था। शाऊल याजक से १९ बातें कर रहा था कि पल्लितियों की छावनी में का हुल्लड़ अधिक होता गया सो शाऊल ने याजक से कहा अपना हाथ खींच। तब शाऊल और उस के संग के सब लोग २० इकट्ठे होकर लड़ाई में गये वहां उन्होंने ने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत बड़ा केलाहल मच रहा है। और जो २१ इन्नों पहिले की नाई पल्लितियों की ओर के थे और उन के साथ चारों ओर से छावनी में गये थे वे भी शाऊल और योनातान के संग के इस्राएलियों में मिल गये। और जितने इस्राएली पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश में २२ छिप गये थे वे भी यह सुनकर कि पल्लितों भागे जाते हैं लड़ाई में आ उन का पीछा करने में लग गये। सो २३ यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को छुटकारा दिया और लड़नेहारे बेतावेन की परती और लो चले गये। पर २४ इस्राएली पुरुष उस दिन तंग हुए क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को किरिया धराकर कहा सापित हो वह जो सांक से पहिले कुछ खाए इसी रीति में अपने शत्रुओं से पलटा ले सकंगा। सो उन लोगों में से किसी ने कुछ भोजन न किया। और सब लोग किसी वन में पहुंचे २५ जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। सो जब लोग वन में आये तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है तौभी किरिया के डर क मारे काई अपना हाथ अपने मुंह तक २६ न ले गया। पर योनातान ने अपने पिता के लोगों को २७ किरिया धराते न सुना था सो उस ने अपने हाथ की

(१) मूल में आधे बीघे की रेघारी। (२) मूल में परमेश्वर को धर-थराहट। (३) मूल में गलती। (४) मूल में सारा देश।

छुड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छूत्ते में बोरी और अग्ना  
 हाथ अपने मुँह तक लगाया तब उस की आँखों से  
 ३८ सुन्नने लगा । तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा तेरे  
 पिता ने लोगों को दृढ़ता से किरिया घराके कहा स्थापित  
 हो वह जो आज कुछ खाए और लोग थके मान्दे थे ।  
 ३९ योनातान ने कहा मेरे पिता ने लोगों को<sup>१</sup> कष्ट दिया है  
 देखो मैं ने इस मधु को थोड़ा सा चक्खा और मुझे आँखों  
 ४० से कैसा सुन्नने लगा । सो यदि आज लोग अपने शत्रुओं  
 की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो  
 कितना अच्छा होता अभी तो बहुत पलिशती मारे नहीं  
 ४१ गये । उस दिन वे मिक्माश से लेकर अग्यालोन लों  
 पलिशतियों को मारते गये और लोग बहुत ही थक गये ।  
 ४२ सो वे लूट पर टूटे और भेड़ बकरी और गाय बैल और  
 बछड़े ले भूमि पर मारके उन का मांस लोहू समेत खाने  
 ४३ लगे । जब इस का समाचार शाऊल को मिला कि लोग  
 लोहू समेत मांस खाकर यहेवा के विरुद्ध पाप करते हैं  
 तब उस ने उन से कहा तुम ने तो विश्वासघात किया है  
 ४४ अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुटका दो । फिर शाऊल  
 ने कहा लोगों के बीच इधर उधर फिरके उन से कहा  
 कि अपना अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास ले  
 जाओ और वहीं बलि करके खाओ और लोहू समेत  
 खा कर यहेवा के विरुद्ध पाप न करो । सो अब लोगों ने  
 उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया ।  
 ४५ तब शाऊल ने यहेवा की एक वेदी बनवाई वह तो  
 पहिली वेदी है जो उस ने यहेवा के लिये बनवाई ॥  
 ४६ फिर शाऊल ने कहा हम इसी रात को पलिशतियों  
 का पीछा करके उन्हें मार लों लूटते हैं और उन में से  
 एक मनुष्य को भी जीता न छोड़ें उन्होंने ने कहा जो कुछ  
 तुम्हें अच्छा लगे वही कर पर राजक ने कहा हम इधर  
 ४७ परमेश्वर के समीप आएँ । सो शाऊल ने परमेश्वर से  
 पुछवाया कि क्या मैं पलिशतियों का पीछा करूँ क्या तू  
 उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा पर उसे उस दिन  
 ४८ कुछ उत्तर न मिला । तब शाऊल ने कहा हे प्रजा के  
 मुख्य लोगों इधर आकर सुन्नो और देखो कि आज पाप  
 ४९ किस प्रकार से हुआ है । क्योंकि इस्राएल के छुड़ानेहार  
 यहेवा के जीवन की सोह यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान  
 से हुआ हो तौभी निश्चय वह मार डाला जाएगा पर  
 ५० अब लोगों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया । तब उस  
 ने सारे इस्राएलियों से कहा तुम तो एक और हो और मैं  
 और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर होंगे लोगों ने  
 शाऊल से कहा जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे वही कर ।

(१) मूल में देश की ।

तब शाऊल ने यहेवा से कहा हे इस्राएल के परमेश्वर ५१  
 सत्य बात बता<sup>२</sup> तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम  
 पर निकली<sup>३</sup> और प्रजा बच गई । फिर शाऊल ने कहा ५२  
 मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो । तब  
 चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली<sup>४</sup> । तब शाऊल ने ५३  
 योनातान से कहा मुझे बता कि तू ने क्या किया है  
 योनातान ने बताया और उस से कहा मैं ने अपने हाथ  
 की छुड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख तो लिया है  
 और देख मुझे मरना है । शाऊल ने कहा परमेश्वर ५४  
 ऐसा ही करे वरन इस से अधिक भी करे हे योनातान  
 तू निश्चय मारा जाएगा । पर लोगों ने शाऊल से कहा ५५  
 क्या योनातान मारा जाए जिस ने इस्राएलियों का ऐसा  
 बड़ा छुटकारा किया है ऐसा न होगा यहेवा के जीवन  
 की सोह उस के सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने  
 न पाएगा क्योंकि आज के दिन उस ने परमेश्वर के  
 साथ हीकर काम किया है । सो प्रजा के लोगों ने  
 योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया । सो ५६  
 शाऊल पलिशतियों का पीछा छोड़कर लौट गया और  
 पलिशती भी अपने स्थान को चले गये ॥

जब शाऊल इस्राएलियों के राज्य में स्थिर हो गया<sup>५</sup> ५७  
 तब वह मोआबी अम्मोनी एदोमी और पलिशती अपने  
 चागेँ और के सब शत्रुओं से और सोबा के राजाओं से  
 लड़ा और जहां जहां वह जाता वहां जय पाता था । फिर ५८  
 उम ने बरता करके अमालेकियों को जीता और इस्रा-  
 एलियों को लूटनेहारों के हाथ से छुड़ाया ॥

शाऊल के पुत्र योनातान यिशबी और मलकीश थे ५९  
 और उस की दो बेटियों के नाम ये थे बड़ी का नाम तो  
 मरब और छोटी का नाम मीकल था । और शाऊल की ५०  
 स्त्री का नाम अहीनोअम था जो अहीमास का बेटा थी  
 और उस के प्रधान सेनापति का नाम अबेर था जो  
 शाऊल के चचा नेर का पुत्र था । और शाऊल का पिता ५१  
 कीश था और अबेर का पिता नेर अशीएल का पुत्र था ॥

और शाऊल के जीवन भर पलिशतियों से भारी लड़ाई ५२  
 होती रही सो जब जब शाऊल को कोई बिर वा अच्छा  
 योद्धा देख पड़ा तब उस ने उसे अपने पास रख लिया ॥

(शाऊल का दूसरा अपराध और उस का फल)

१५. शमूएल ने शाऊल से कहा यहेवा ने  
 अपना प्रजा इस्राएल पर  
 राज्य करने के लिये तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा

(२) मूल में खराई दे । (३) मूल में योनातान और शाऊल पकड़े गये ।

(४) मूल में योनातान पकड़ा गया । (५) मूल में शाऊल ने इस्राएल  
 पर राज्य ले लिया ।

२ था सो अब यहोवा की बातें सुन ले । सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया कि जब इस्राएली मिश्र से आ रहे थे तब उन्होंने ने मार्ग में उन का साम्हना किया । सो अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उन का है उसे बिना कोमलता किये सत्यानाश कर क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बच्चा क्या दूधपिउवा क्या गाय बैल क्या भेड़ बकरी क्या ऊंट क्या गदहा सब को मार डाल ॥

४ सो शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाईम में गिना और वे दो लाख प्यादे हुए और ५ दस हजार यहूदी भी थे । तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में शत्रुओं को बिठाया । और शाऊल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों के बीच से निकल जाओ न हो कि मैं उन के साथ तुम्हारा भी अन्त कर डालूँ तुम ने तो सब इस्राएलियों पर उन के मिश्र से आते समय प्रीति दिखाई थी । ७ सो केनी अमालेकियों के बीच से हट गये । तब शाऊल ने हवीला से लेकर और लों जो मिश्र के साम्हने है अमालेकियों का मार, और उन के राजा अगाग को जीता पकड़ा और उस की सारी प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर ९ डाला । परन्तु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैलों मोटे पशुओं और भेड़ों और जो कुछ अच्छा था उस पर शाऊल और उस की प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा पर जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उस को उन्होंने ने सत्यानाश किया ॥

१० तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुँचा ११ कि, मैं शाऊल को राजा करके पकड़ता हूँ क्योंकि उस ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का नहीं माना । तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर १२ यहोवा की दोहाई देता रहा । बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिये सवेरे उठा तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कर्म्मेल को आया था और अपने लिये एक निशानी खड़ी की और घूमकर १३ गिलगाल को चला गया है । तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उस से कहा तुम्हें यहोवा की ओर से आशिष मिले मैं ने यहोवा की आज्ञा पूरी की १४ है । शमूएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह बंधाना जो मुझे सुनाई १५ देता है सो क्यों हो रहा है । शाऊल ने कहा वे तो अमालेकियों के यहां से आये हैं अर्थात् प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये बलि करने को छोड़ दिया

और और सब को हम ने सत्यानाश किया है । शमूएल ने शाऊल से कहा रह जा जो बात यहोवा ने १६ आज रात को मुझ से कही है वह मैं तुम्हें को बताता हूँ वह बोला कह दे । शमूएल ने कहा जब तू अपने १७ लेखे छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रियों का प्रधान न हो गया और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभियेक न किया । सो यहोवा ने तुम्हें १८ यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर और जब लों वे भिट न जाएं तब लों उन से लड़ता रह । फिर तू ने किस लिये १९ यहोवा की वह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा के लेखे बुरा है । शाऊल ने शमूएल से कहा २० निःसंदेह मैं यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों को सत्यानाश किया है । पर प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों २१ अर्थात् सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये बलि चढ़ाने को ले आये हैं । शमूएल ने कहा क्या यहोवा होमबलियों और २२ मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढों की चर्बी से उत्तम है । देख बलवा करना और भावी कहनेहारों से पूछना २३ एक ही समान पाप है और हठ करना मूर्तों और गृह-देवताओं की पूजा के तुल्य है तू ने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना इसलिये उस ने तुम्हें राजा होने के लिये तुच्छ जाना है । शाऊल ने शमूएल से कहा मैं ने पाप २४ किया है मैं ने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मान कर और उन की बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है । पर अब मेरे पाप को २५ क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दण्डवत् करूँ । शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ २६ न लौटंगा क्योंकि तू ने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुम्हें इस्राएल के राजा होने के लिये तुच्छ जाना है । तब शमूएल चले जाने को घूमा और २७ शाऊल ने उस के बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया । सो शमूएल ने उस से कहा आज यहोवा ने २८ इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुम्हें से छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुम्हें से अच्छा है दे दिया है । और जो इस्राएल का बलमूल है वह न मूठ बोलने न २९ पकृताने का क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पकृताए । उस ने कहा मैं ने पाप तो किया है तौभी मेरी प्रजा के ३०

- पुरनियों और इस्राएल के साम्हने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यशोवा को दण्डवत् करूं। सो शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यशोवा को दण्डवत् की ॥
- तब शमूएल ने कहा अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। सो अगाग आनन्द के साथ यह कहता हुआ उस के पास गया कि निश्चय मृत्यु का दुःख जाता रहा। शमूएल ने कहा जैसे स्त्रियां तेरी तनवार से निर्वेश हुई हैं वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वेश होगी तब शमूएल ने अगाग को गिलगाल में यशोवा के साम्हने टुकड़े टुकड़े किया ॥
- तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर मेंट न की क्योंकि शमूएल शाऊल के विषय विलाप करता रहा और यशोवा शाऊल को इस्राएल का राजा करके पछताता था ॥

(दाऊद का राक्ष्याभिषेक)

## १६. और यशोवा ने शमूएल से कहा मैं

- ने शाऊल का इस्राएल पर राज्य करने के लिये तुच्छ जाना है सो तू कब लौं उस के विषय विलाप करता रहेगा अपने पींग में तेल भरके कल में तुझ को बेतलेहेमी यिरी के पास भेजता हूं क्योंकि मैं ने उस के पुत्रों में से एक को राजा होने के लिये चुना है। शमूएल बोला मैं क्योंकर जा सकता हूं यदि शाऊल मुने तो मुझे घात करेगा यशोवा ने कहा एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यशोवा के लिये यश करने को आया हूं। और यश पर यिरी को न्योता देना तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझ को क्या करना है और जिस को मैं तुझे बताऊं उसी का मेरा और से अभिषेक करना। सो शमूएल ने यशोवा के कहे के अनुसार किया और बेतलेहेम को गया। उस नगर के पुरनिये घरधराते हुए उस से मिलने को गये और कहने लगे क्या तू मित्रभाव से आया है कि नहीं। उस ने कहा हां मित्रभाव से आया हूं मैं यशोवा के लिये यश करने को आया हूं तुम अपने अपने को पवित्र कर के मेरे साथ यश में आओ। तब उस ने यिरी और उस के पुत्रों को पवित्र करके यश में आने का न्योता दिया। जब वे आये तब उन ने एल आव पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यशोवा के साम्हने है वही उस का अभिषेक होगा। पर यशोवा ने शमूएल से कहा न तो उन के रूप पर दृष्टि कर और न उस के डील की ऊंचाई पर क्योंकि मैं ने उसे अयोग्य जाना है क्योंकि यशोवा का देखना

मनुष्य का सा नहीं है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता पर यशोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिरी ने अवीनादाब को बुलाकर शमूएल के साम्हने भेजा और उस ने कहा यशोवा ने इस को भी नहीं चुना। फिर यिरी ने शम्मा को साम्हने भेजा और उस ने कहा यशोवा ने इस को भी नहीं चुना। योंही यिरी ने अपने सात पुत्रों को शमूएल के साम्हने भेजा और शमूएल यिरी से कहता गया यशोवा ने इसे नहीं चुना। तब शमूएल ने यिरी से कहा क्या सब लड़के आ गये वह बोला नहीं लहुरा तो रह गया और वह मेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिरी से कहा उसे बुलवा भेज क्योंकि जब लौं वह यहां न आए तब लौं हम खाने को न बैठेंगे। सो वह उसे बुलाकर भीतर ले आया उस के सो लाली भलकती थी और उस की आंखें सुन्दर और उस का रूप सुडौल था। तब यशोवा ने कहा उठकर इस का अभिषेक कर यही है। सो शमूएल ने अपना तेल का पींग लेकर उस के भाइयों के मध्य में उन का अभिषेक किया और उस दिन से लेकर आगे को यशोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा तब शमूएल पथारा और रामा को चला गया ॥

और यशोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यशोवा की ओर से एक दुः आत्मा उसे घबराने लगा। सो शाऊल के कर्मचारियों ने उस से कहा सुन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो हाजिर हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे बीया बजानेहारे को दूंतु ले आएँ और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा अच्छा एक उत्तम बजवैया देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा मुन मैं ने बेतलेहेमी यिरी के एक पुत्र को देखा जो बीया बजाना जानता है और वह बीर और धोखा भी और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान् भी है और यशोवा उस के साथ रहता है। सो शाऊल ने दूतों के हाथ यिरी के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को जो मेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिरी ने रोटी से लदा हुआ एक गदहा और कुप्पा भर दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। सो दाऊद शाऊल के पास जाकर उस के साम्हने हाजिर रहने लगा और शाऊल उस से बहुत प्रीति

(१) मूल में इस चारों ओर ।

करने लगा और वह उस का हथियार ढोने लगा ही गया ।

२१ तब शाऊल ने यिशी के पास कहला भेजा कि दाऊद को मेरे साम्हने हाजिर रहने दे क्योंकि मैं उस से बहुत  
२२ प्रसन्न हूँ । सो जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा  
शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद बीया लेकर  
बजाता और शाऊल चैन पाकर अन्धा हो जाता था  
और वह दुष्ट आत्मा उस पर से उतर जाता था ॥

(दाऊद का गोल्थत को मार डालना)

१७. पलिश्तियों ने लड़ने के लिये अपनी

सेनाओं को ईकट्टा किया

और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और

२ अजका के बीच एपेसदम्मीम में डेरे डाले । और शाऊल

और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्टे होकर एला नाम तराई

में डेरे डाले और लड़ाई के लिये पलिश्तियों में विरुद्ध पांति

३ बांधी । पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली

दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई

४ थी । तब पलिश्तियों की छावनी से एक वीर<sup>१</sup> गोल्थत

नाम निकला जो गत नगर का था और उस के डील की

५ लम्बाई छः हाथ एक बिन्ता थी । उस के सिर पर पीतल का

टोप था और वह एक पत्तर का झिल्लम पहिने हुए था

६ जिस का तौल पांच हजार शेकेल पीतल का था । उस की

टांगों पर पीतल के कवच थे और उस के कंधों के बीच

७ पांतल की सांग बन्धी थी । उस के भाले की छड़ जुलाहे

के ढँके के समान थी और उस भाले का फल छः सौ शेकेल

लोहे का था और बड़ी ढाल लिये हुए एक जन उस के आगे

८ आगे चलता था । वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को

ललकारके बोला तुम ने यहां आकर लड़ाई के लिये क्यों

पांति बांधी है क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल

के अधीन नहीं हो अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे

९ पास उतर आए । यदि वह मुझ से लड़कर मुझे मार

सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे पर यदि मैं

उस पर प्रबल होकर उसे मारूँ तो तुम को हमारे अधीन

१० होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी । फिर वह पलिश्ती बोला

मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूँ

किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें ।

११ उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और सारे

इस्राएलियों का मन कड़ा हो गया और वे निपट डर गये ॥

१२ दाऊद तो यहूदा में के बेतलेहेम के उस एप्राती

पुरुष का पुत्र था जिस का नाम यिशी था और उस के

आठ पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और

१३ निर्बल हो गया था । यिशी के तीन बड़े पुत्र शाऊल के

पीछे होकर लड़ने को गये थे और उस के तीन पुत्रों के

नाम जो लड़ने को गये थे वे थे अर्थात् जेठे का नाम

एलीआव दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा

है । और सब से छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र १४

शाऊल के पीछे होकर गये थे । और दाऊद बेतलेहेम में १५

अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास

से आया जाता करता था ॥

वह पलिश्ती ती चालीस दिन लों सबेरे और सांझ १६

को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था । और यिशी ने १७

अपने पुत्र दाऊद से कहा यह एपा भर चबेना और ये

दस रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़

जा । और पनीर की ये दस टिकियां उन के सहस्रपति के १८

लिये ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उन

की कोई चिन्हानी ले आना । शाऊल और वे भाई और १९

सारे इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में पलिश्तियों से

लड़ रहे थे । सो दाऊद बिहान को सत्रे उठ भेड़ २०

बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर वे बस्तुपं

लेकर चला और जब सेना रणभूमि को जा रही और

लड़ने को ललकार रही थी उसी समय वह गाड़ियों के

पड़ाव पर पहुँचा । तब इस्राएलियों और पलिश्तियों ने २१

अपनी अपनी सेना आम्हने साम्हने करके पांति बांधी ।

सो दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में २२

छोड़ रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास

जाकर उन का कुशलचेम पूछा । वह उन के साथ बातें २३

कर रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर

अर्थात् गतबासी गोल्थत नाम वह पलिश्ती चढ़ आया

और पहिले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें २४

सुना । उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यन्त २५

भय खाकर उस के साम्हने से भागे । फिर इस्राएली २६

पुरुष कहने लगे क्या तुम ने उस पुरुष को देखा है जो

चढ़ा आ रहा है निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने

को चढ़ा आता है सो जो कोई उसे मार डाले उस को

राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा और

उस के पिता के घराने को इस्राएल में स्वाधीन कर देगा ।

सो दाऊद ने उन पुरुषों से जो उस के आस पास खड़े २७

थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मारके इस्राएलियों की

नामधराई दूर करे उस के लिये क्या किया जाएगा वह

खतनारहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवते परमेश्वर की

सेना को ललकारे । तब लोगों ने उस से वैसी बातें कहीं २८

अर्थात् कहा कि जो कोई उसे मारे उस से ऐसा ऐसा

किया जाएगा । जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा २९

था तब उस का बड़ा भाई एलीआव सुन रहा था और

(१) मूल में दोनों ओर का पुरुष । (२) मूल में मुझे दो ।



एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा तू  
 यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन योड़ी सी मेड़  
 बकरियों को तू किस के पास छोड़ आया है तेरा अभिमान  
 और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है तू तो लड़ाई  
 २९ देखने के लिये यहाँ आया है । दाऊद ने कहा मैं ने अब  
 ३० क्या किया है वह तो निरी बात थी । तब उस ने उस के  
 पास से मुँह फेरके दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात  
 कही और लोगों ने उसे पहिले की नाई उत्तर दिया ।  
 ३१ जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी  
 ३२ सुनाई गई और उस ने उसे बुलवा भेजा । तब दाऊद ने  
 शाऊल से कहा किसी मनुष्य का मन उस के कारण  
 कच्चा न हो तेरा दास जाकर उस पलिशती से लड़ेगा ।  
 ३३ शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस पलिशती के  
 विरुद्ध नहीं जा सकता क्योंकि तू तो लड़का है और वह  
 ३४ लड़कपन ही से योद्धा है । दाऊद ने शाऊल से कहा तेरा  
 दास अपने पिता की मेड़ बकरियाँ चराता था और जब  
 कोई सिंह वा भालू आ भुंड में से भेजा उठा ले गया,  
 ३५ तब मैं ने उस का पीछा करके उसे मारा और भेम्ने को  
 उस के मुँह से छुड़ाया और जब उस ने मुझ पर चढ़ाई  
 की तब मैं ने उस के केशर को पकड़कर उसे मार डाला ।  
 ३६ तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और  
 वह खतनारहित पलिशती उन के समान हो जाएगा  
 क्योंकि उस ने जीवते परमेश्वर की सेना का ललकारा  
 ३७ है । फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिस ने मुझे सिंह और  
 भालू दोनों के पंजे से बचाया वह मुझे उस पलिशती के  
 हाथ से भी बचाएगा । शाऊल ने दाऊद से कहा जा  
 ३८ यहोवा तेरे साथ रहे । तब शाऊल ने अपने बख दाऊद  
 को पहिनाये और पीतल का टोप उस के सिर पर रख  
 ३९ दिया और किलम उस को पहिनाया । और दाऊद ने  
 उस की तलवार बख के ऊपर कसी और चलने का यत्न  
 किया उस ने तो उन को न परखा था सो दाऊद ने  
 शाऊल से कहा इन्हें पहिने हुए मुझ से चला नहीं  
 ४० दिया । तब उस ने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से  
 पांच चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली  
 अर्थात् अपने भोले में रक्से और अपना गोफन हाथ में  
 ४१ लेकर पलिशती के निकट चला । और पलिशती चलते  
 चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उस  
 की बड़ी ढाल लिये था वह उस के आगे आगे चला ।  
 ४२ जब पलिशती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे  
 दुन्दुब जाना क्योंकि वह लड़का ही था और उस के मुख  
 ४३ में लाली झलकती थी और वह सुन्दर था । सो पलिशती

ने दाऊद से कहा क्या मैं कूकुर हूँ कि तू लाठियाँ  
 लेकर मेरे पास आता है तब पलिशती अपने देवताओं  
 के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा । फिर पलिशती ने  
 दाऊद से कहा मेरे पास आ मैं तेरा मांस आकाश के  
 पक्षियों और बनेले पशुओं को दे दूंगा । दाऊद ने पलिशती  
 से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिये हुए  
 मेरे पास आता है पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से  
 तेरे पास आता हूँ जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है  
 और उसी को तू ने ललकारा है । आज के दिन यहोवा  
 तुझ को मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझ को मारूंगा  
 और तेरा सिर तेरे बख से अलग करूंगा और मैं आज के  
 दिन पलिशती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और  
 पृथिवी के जीव जन्तुओं को दे दूंगा तब सारी पृथिवी के  
 लोग जान लेंगे कि इस्राएल में परमेश्वर है । और यह  
 सारी मयडली जान लेंगी कि यहोवा तलवार वा भाले के  
 द्वारा जयवन्त नहीं करता । यह लड़ाई तो यहोवा की है  
 और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा । जब पलिशती  
 उठकर दाऊद का साम्हना करने के लिये निकट आया  
 तब दाऊद सेना की ओर पलिशती का साम्हना करने के  
 लिये कुर्ती से दौड़ा । फिर दाऊद ने अपनी थैली में  
 हाथ डाल उस में से एक पत्थर ले गोफन में धर पलिशती  
 के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उस के माथे के भीतर  
 पैठ गया और वह भूमि पर मुँह के बल गिरा । यो दाऊद  
 ने पलिशती पर गोफन और पत्थर ही द्वारा प्रबल होकर  
 उसे मार डाला और दाऊद के हाथ में तलवार न थी ।  
 तब दाऊद दौड़कर पलिशती के ऊपर खड़ा हुआ और  
 उस की तलवार पकड़कर मियान से खींची और उस को  
 घात किया और उस का सिर उसी तलवार से काट डाला ।  
 यह देखकर कि हमारा बीर मर गया पलिशती भाग गये ।  
 इस पर इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और  
 गत<sup>१</sup> और एकोन के फाटकों तक पलिशतियों का पीछा  
 करते गये और आयल पलिशती शारैम के मार्ग में और  
 गत और एकोन लों गिरते गये । तब इस्राएली पलिशतियों  
 का पीछा छोड़कर लौट आये और उन के डेरों को लूट  
 लिया । और दाऊद पलिशती का सिर यरूशलेम में ले  
 गया और उस के हथियार अपने डेरों में धर लिये ॥

(शाऊल की शत्रुता का आरम्भ और बढ़ती)

जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिशती का साम्हना  
 करने के लिये जाते देखा तब उस ने अपने सेनापति अन्नेर  
 से पूछा हे अन्नेर वह जबान किस का पुत्र है अन्नेर ने  
 कहा हे राजा तेरे जीवन की सोह मैं नहीं जानता । राजा

(१) वा तराई ।

- १७ ने कहा तू पूछूँ मैं कि वह जवान किस का पुत्र है । सो जब दाऊद पलिशती के मारके लौटा तब अग्नेर ने उसे पलिशती का विर हाथ में लिये हुए शाऊल के साम्हने १५
- १८ गहुँचाया । शाऊल ने उस से पूछा हे जवान तू किस का पुत्र है दाऊद ने कहा मैं तो तेरे दास बेतलेहेमी यिशी १६
- १ का पुत्र हूँ । जब वह शाऊल से बातें कर १७
- १८ चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के बराबर १८
- १९ प्यार करने लगा । और उस दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखवा और पिता के घर को फिर लौटने न १९
- २ दिया । तब योनातान ने दाऊद से बाचा बांधी क्योंकि वह उस को अपने प्राण के बराबर प्यार करता था । २०
- २ और योनातान ने अपना बागा जो वह आप पहिने था उतारके उसे अपने बरु समेत दाऊद को दिया बरन अपनी तलवार और धनुष और फेंटा भी उस को दे दिये । २१
- ३ और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था सो शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान किया और सारी प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उस से प्रसन्न हुए ॥ २२
- ४ जब दाऊद उस पलिशती को मारके लौटा आता था और लोग आ रहे थे तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने भाजे लिये हुए आनन्द के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा से भेंट की । और वे २३
- ५ स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरी के साथ यह टेक गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है ॥ २४
- ६ तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उस को बुरी लगी और वह कहने लगा उन्हों ने दाऊद के लिये तो लाखों और मेरे लिये हजारों ही कहे राज्य को छोड़ २५
- ७ उस को सब कुछ मिला है । सो उस दिन से आगे को शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा ॥ २६
- ८ दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा । दाऊद दिन दिन की नाई बजा २७
- ९ रहा था और शाऊल के हाथ में भाला था । सो शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेधकर भीत में धस जाए भाले को चलाया पर दाऊद २८
- १० उस के साम्हने से दो बार हट गया । फिर शाऊल दाऊद से डर गया क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ रहा और शाऊल २९
- ११ के पास से अलग हो गया था । सो शाऊल ने उस को अग्ने पास से अलग करके सहस्रपति किया और वह प्रजा ३०
- १२ के साम्हने आया जाया करता था । और दाऊद अपनी सारी

चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उस के साथ रहता था । सो जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत १५ बुद्धिमान है तब वह उस से डर गया । पर इस्राएल और १६ यहूदा के सारे लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उन के देखते आया जाया करता था ॥

और शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं १७ पलिशतियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े उस से कहा सुन मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब को तुझे ब्याह दूंगा इतना ही कि तू मेरे लिये बीरता करके यहोवा की ओर से लड़े । दाऊद ने शाऊल से कहा मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है १८ और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊँ । जब समय आ गया कि शाऊल १९ की बेटी मेरब दाऊद से ब्याही जाए तब वह महोलाई अत्रीएल से ब्याही गई । और शाऊल की बेटी मीकल २० दाऊद से प्रीति रखने लगी और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ । शाऊल तो २१ सोचता था कि वह उस के लिये फन्दा ही और पलिशतियों का हाथ उस पर पड़े । सो शाऊल ने दाऊद से कहा अब की बार तो तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा । फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों के आशा दी कि २२ दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन राजा तुम्ह से प्रसन्न है और उस के सब कर्मचारी भी तुम्ह से प्रेम रखते हैं सो अब तू राजा का दामाद हो जा । सो २३ शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कहीं पर दाऊद ने कहा मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ फिर क्या तुम्हारे लेखे राजा का दामाद होना छोटी बात है । जब २४ शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कहीं तब शाऊल ने कहा तुम दाऊद से थो २५ कही कि राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता केवल पलिशतियों की एक सौ खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से पलटा ले । शाऊल की मनसा यह थी कि पलिशतियों से दाऊद को मरवा डालूँ । जब उस के २६ कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताईं तब वह राजा का दामाद होने का प्रसन्न हुआ । जब ब्याह के दिन कुछ रह गये, तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और २७ पलिशतियों के दो सौ पुरुषों को मारा तब दाऊद उन की खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गईं इसलिये कि वह राजा का दामाद हो जाए सो शाऊल ने अपनी बेटी मीकल को उसे ब्याह दिया । जब शाऊल ने देखा और निश्चय किया कि २८ यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उस से

(१) मूल में आज दूसरी रीति पर तू ।

- २९ प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया और शाऊल सदा के लिये दाऊद का बैरी बन गया ॥
- ३० फिर पलिशियों के प्रधान निकल आये और जब जब वे निकल आये तब तब दाऊद ने शाऊल के और सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई इस से उस का नाम बहुत बढ़ा हो गया ॥

**१९. सो** शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को

- मार डालने की चर्चा की । पर शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था । सो योनातान ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता तुम्हें मरवा डालना चाहता है सो तू बिहान को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठकर हुआ खिपा रहना । और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जा कर अपने पिता के पास खड़ा हूंगा और उस से तेरी चर्चा करूंगा और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुम्हें बताऊंगा ।
- ४ सो योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उस से कहा कि हे राजा अपने दास दाऊद का अपराधी न हो क्योंकि उस ने तेरा कुछ अपराध नहीं किया बरन उस के सब काम तेरे बहुत हित के हैं । उस ने अपने प्राण पर खेल कर उस पलिशियों को मार डाला और यहोवा ने सारे ह्साएलियों की बड़ी जय कराई इसे देखकर तू आनन्दित हुआ था सो तू दाऊद को अकारण मारके निर्दोष के खून का पापी क्यों बने । तब शाऊल ने योनातान की बात मान कर यह किरिया खाई कि यहोवा के जीवन की सोह दाऊद मार डाला न जाएगा । सो योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये सारी बातें उस को बताई फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया और वह पहिले की नाई उस के साम्हने रहने लगा ॥
- ८ और फिर लड़ाई होने लगी और दाऊद जाकर पलिशियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और वे उस के साम्हने से भागे । और जब शाऊल हाथ में भाला लिये हुए अपने घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बजा रहा था । तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा । और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारूँ कि भाला उसे बेधते हुए भीत में धंस जाए पर दाऊद शाऊल के साम्हने से ऐसा बच गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस गया और दाऊद भागा
- ११ और उस रात को बच गया । सो शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिये भेजे कि वे उस की घात में रहें और बिहान को उसे मार डालें सो दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कह कर जताया कि यदि तू इस रात को अम्ना

(१) मूल में अनमोल ।

प्राण न बचाए ते बिहान को भाग जाएगा । तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर बच निकला । तब मीकल ने यह देवताओं को लौ चारपाई पर लिटाया और बकरियों के रोएं की तकिया उस के सिरहाने पर रखकर उन को वस्त्र ओढ़ाये । जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिये दूत भेजे तब वह बेवली वह तो बीमार है । तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिये भेजा और कहा उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूँ । जब दूत भीतर गये तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर यह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोएं की तकिया है । सो शाऊल ने मीकल से कहा तू ने मुझे ऐसा बोला क्यों दिया तू ने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है । मीकल ने शाऊल से कहा उस ने मुझ से कहा कि मुझे जाने दे मैं तुम्हें क्यों मार डालूँ ॥

सो दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उस से किया था सब उसे कह सुनाया सो वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे । जब शाऊल को इस का समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिये दूत भेजे और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उन का प्रधानता करते हुए देखा तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे । इस का समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे । तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड़हे पर जो सेकू में है पहुंच कर पूछने लगा कि शमूएल और दाऊद कहाँ हैं किसी ने कहा वे तो रामा में के नबायोत में हैं । सो वह उधर अर्थात् रामा के नबायोत के चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा सो वह रामा के नबायोत की पहुंचने लो नबूवत करता हुआ चला गया । और उस ने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के साम्हने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर उस दिन दिन रात नङ्गा पड़ा रहा इस कारण से यह कहावत चली कि क्या शाऊल भी नबियों में का है ॥

(दाऊद का भागना और शाऊल के डर के मारे इधर उधर धूमना)

**२०. फिर** दाऊद रामा में के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा मैं ने क्या किया है मुझ से क्या

(२) अर्थात् कर वासस्थान ।

पाप हुआ मैं ने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन अपराध  
 २ किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है । उस ने  
 उस से कहा ऐसी बात नहीं है तू मारा न जाएगा सुन मेरा  
 पिता मुझ को बिना जताये न तो कोई बड़ा काम करता  
 है और न कोई छोटा फिर वह ऐसी बात को मुझ से क्यों  
 ३ छिपायेगा ऐसी कोई बात नहीं है । फिर दाऊद ने किरिया  
 खाकर कहा तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरी अनु-  
 ग्रह की दृष्टि मुझ पर है सो वह सोचता होगा कि योना-  
 तान इस बात को न जानने पाए न हो कि वह खेदित  
 हो जाए पर यहोवा के जीवन की सौह और तेरे जीवन  
 की सौह निःसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का  
 ४ अन्तर है । योनातान ने दाऊद से कहा जो कुछ तेरा  
 ५ जो चाहे वही मैं तेरे लिये करूंगा । दाऊद ने योनातान  
 से कहा सुन कल नया चांद होगा और मुझे उचित है  
 कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं पर तू मुझे बिदा  
 ६ कर और मैं परसों सांभ लों मैदान में छिपा रहूंगा । यदि  
 तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना कि दाऊद ने  
 अपने नगर बेतलेहेम को शीघ्र जाने के लिये मुझ से  
 ७ बिनती करके छुड़ी मांगी क्योंकि वहां उस के सारे कुल  
 के लिये बरस बरस का यश है । यदि वह यों कहे कि  
 अच्छा तब तो तेरे दास के लिये कुशल होगा पर यदि  
 उस का क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उस ने  
 ८ बुराई ठानी है । सो तू अपने दास से कृपा का व्यवहार  
 करना क्योंकि तू ने यहोवा की किरिया खिलाकर अपने दास  
 को अपने साथ वाचा बंधाई है पर यदि मुझ से कुछ  
 अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल तू मुझे  
 ९ अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए । योनातान ने कहा  
 ऐसी बात कभी न होगी यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे  
 पिता ने तुझ से बुराई करनी ठानी है तो क्या मैं तुझ  
 १० को न बताता । दाऊद ने योनातान से कहा यदि तेरा  
 पिता तुझ को कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा ।  
 ११ योनातान ने दाऊद से कहा चल हम मैदान को निकल  
 जाएं सो वे दोनों मैदान को चले गये ॥  
 १२ तब योनातान दाऊद से कहने लगा इस्राएल के  
 परमेश्वर यहोवा की सौह जब मैं कल था परसों इसी समय  
 अपने पिता का मेद पाऊं तब यदि दाऊद की भलाई  
 देखूं तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दून भेजकर तुझे न  
 १३ बताऊंगा । यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का  
 हो और मैं तुझ पर यह प्रगट करके तुझे बिदा न करूं  
 कि तू कुशल के साथ चला जाए तो यहोवा योनातान  
 से ऐसा ही बरन इस से भी अधिक करे । और यहोवा  
 तेरे साथ बैठा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा ।

और न केवल जब तक मैं जीता रहूँ तब तक मुझ पर १४  
 यहोवा की सी कृपा ऐसा करना कि मैं न मरूं परन्तु मेरे  
 घराने पर से भी अपनी कृपादृष्टि कभी न हटाना, बरन १५  
 जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथिवी पर से  
 नाश कर चुकेगा तब भी ऐसा न करना । इस प्रकार योना- १६  
 तान ने दाऊद के चाने से यह कहकर वाचा बंधाई कि  
 यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा ले । और योनातान १७  
 दाऊद से प्रेम रखता था सो उस ने उस को फिर किरिया  
 खिलाई क्योंकि वह उस से अपने प्राण के बराबर प्रेम  
 रखता था । तब योनातान ने उस से कहा कल नया १८  
 चांद होगा और तेरा चिंता की जाएगी क्योंकि तेरी कुर्सी  
 खासी रहेगी । और तू तीन दिन के भीतने पर कुर्ती १९  
 करके अना और उस स्थान पर जाकर जहां तू उस काम  
 के दिन छिपा था एजेल नाम परथर के पास रहना । तब २०  
 मैं उस की अलंग मानों अपने किसी ठहराये हुए चिन्ह  
 पर तीन तीर चलाऊंगा । फिर मैं अपने छोकरे को यह २१  
 कह कर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूँढ ले आ यदि मैं  
 उस छोकरे से साफ साफ कहूँ कि देख तीर उधर तेरी  
 इस अलंग पर हैं तो तू उसे ले आ क्योंकि यहोवा के  
 जीवन की सौह तेरे लिये कुशल को छोड़ और कुछ न  
 होगा । पर यदि मैं छोड़रे से यों कहूँ कि सुन तीर उधर २२  
 तेरे उस अलंग पर हैं तो तू चला जाना क्योंकि यहोवा  
 ने तुझे बिदा किया है । और उस बात के विषय जिस २३  
 की चर्चा मैं ने और तू ने आपस में की है यहोवा मेरे  
 तेरे बीच में सदा रहे ॥

सो दाऊद मैदान में जा छिपा और जब नया चांद २४  
 हुआ तब राजा भोजन करने का बैठा । राजा तो पहिले २५  
 की नाई अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था  
 और योनातान खड़ा हुआ और अन्तेर शाऊल के बगल  
 में बैठा पर दाऊद का स्थान खाली रहा । उस दिन तो २६  
 शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि उस का कोई न कोई  
 कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निःसंदेह शुद्ध न होगा ।  
 फिर नये चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली २७  
 रहा सो शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा क्या  
 कारण है कि यिशी का पुत्र न तो कल भोजन पर आया  
 था और न आज आया है । योनातान ने शाऊल से २८  
 कहा दाऊद ने बेतलेहेम जाने के लिये मुझ से बिनती  
 करके छुड़ी मांगी, और कहा मुझे जाने दे क्योंकि उस २९  
 नगर में हमारे कुल का यश है और मेरे भाई ने मुझ को  
 वहां हाजिर होने का आज्ञा दी है सो अब यदि मुझ पर  
 तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने  
 भाइयों से भेंट कर आऊँ इसी कारण वह राजा की

३० मेज पर नहीं आया । तब शाऊल का कैप योनातान पर भड़क उठा और उस ने उस से कहा हे कुटिल धर्मैतन के पुत्र क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन जो यिश्शै के पुत्र पर लगा है इस से तेरी आशा का टूटना और तेरी  
 ३१ माता का अनादर ही होगा । क्योंकि जब लौ यिश्शै का पुत्र भूमि पर जीता रहे तब लौ न तू न तेरा राज्य स्थिर  
 ३२ होगा सो अभी मेज कर उसे मेरे पास ला क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा । योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उस से कहा वह क्यों मारा जाय  
 ३३ उस ने क्या किया है । तब शाऊल ने उस को मारने के लिये उस पर भाला चलाया इस से योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान  
 ३४ लिया है । सो योनातान कैप से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन का भोजन न किया क्योंकि वह बहुत खेदित था कि मेरे पिता ने दाऊद का अनादर किया है ॥

३५ बिहान का योनातान एक छोटा लड़का संग लिये हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराये हुए स्थान का  
 ३६ गया । तब उस ने अपने छोकरे से कहा दौड़कर जो जो तीर मैं चलाऊं उन्हें हूँठ ले आ । छोकरा दौड़ता ही था  
 ३७ कि उस ने एक तीर उस के परे चलाया । जब छोकरा योनातान के चलाये तीर के स्थान पर पहुँचा तब योनातान ने उस के पीछे से पुकार के कहा तीर तो तेरी परली  
 ३८ और है । फिर योनातान ने छोकरे के पीछे से पुकार के कहा बड़ी फुर्ती कर षहर मत सो योनातान का छोकरा  
 ३९ तीरों का बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया । इस का भेद छोकरा तो कुछ न जानता था केवल योनातान  
 ४० और दाऊद उस बात को जानते थे । और योनातान ने अपने हथियार अपने छोकरे को देकर कहा जा इन्हें नगर  
 ४१ का पहुँचा । ज्योंही छोकरा चला गया त्योंही दाऊद दक्खिन दिशा की अलंग से निकला और भूमि पर औँधे मुंह गिर के तीन बार दण्डवत् की तब उन्होंने ने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए पर दाऊद का  
 ४२ रोना अधिक था । तब योनातान ने दाऊद से कहा कुशल से चला जा क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कहके यहोवा के नाम की किरिया खाई है कि यहोवा मेरे तेरे बीच और मेरे तेरे वंश के बीच सदा लौं रहे । तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया ॥

२१. और दाऊद नोब को अहीमेलोक याजक के पास आया और अहीमेलोक दाऊद से भेंट करने की धरधराता हुआ निकला और उस से पूछा क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे

साथ कोई नहीं । दाऊद ने अहीमेलोक याजक से कहा १  
 राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझ से कहा जिस काम की मैं तुम्हें मेजता और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ वह किसी पर प्रकट न होने पाए और मैं ने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है । सो ३  
 अब तेरे हाथ में क्या है पांच रोटी बा जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे । याजक ने दाऊद से कहा मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं है केवल पवित्र रोटी है इतना ४  
 हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों । दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उस से कहा सच है कि हम तीन दिन से स्त्रियों से अलग हैं फिर जब मैं निकल आया तब तो जवानों के बर्तन पवित्र थे यद्यपि यात्रा साधारण है सो आज उन के बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे । तब ५  
 याजक ने उस को पवित्र रोटी दी क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ न थी केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सन्मुख से उठाई गई थी कि उस के उठा लेने के दिन गरम रोटी रक्खी जाए । उसी दिन वहाँ दोएग नाम शाऊल का ६  
 एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था वह एदोमी और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था । फिर दाऊद ने अहीमेलोक से पूछा क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला वा तलवार नहीं है क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ न अपना और कोई हथियार । याजक ने कहा हां ७  
 पलिशती गोल्थत जिसे तू ने एला तराई में घात किया उस की तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे धरी है यदि तू उसे लेना चाहे तो ले उसे छोड़ कोई और यहाँ नहीं है । दाऊद बोला उस के तुल्य कोई नहीं बही मुझे दे ॥ ९

तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के १०  
 मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया । और ११  
 आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह टेक न गाई थी कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है ॥

दाऊद ने ये बालें अपने मन में रक्खी और गत के राजा १२  
 आकीश से निपट डर गया । सो वह उन के साम्हने १३  
 दूसरी चाल चला और उन के हाथ में पकर बौड़हा बन गया और फाटक के किबाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा । तब आकीश १४  
 ने अपने कर्मचारियों से कहा देखो यह जन तो बाबला है तुम उसे मेरे पास क्यों लाये हो । क्या मेरे पास १५  
 बाबलों की कुछ घटी है कि तुम उस को मेरे साम्हने

बाबलापन करने के लिये लाये हो क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा ॥

**२२. सो** दाऊद वहाँ से चला और अद्दु-

- क्लाम की गुफा में पहुँचकर बच गया और यह सुनकर उस के भाई बरन उस के पिता का सारा घराना वहाँ उस के पास गया । और जितने संकट में पड़े और जितने श्रेणी थे और जितने उदास थे वे सब उस के पास इकट्ठे हुए और वह उन का प्रधान हुआ और कोई चार सौ पुरुष उस के साथ हो गये ॥
- ३ वहाँ से दाऊद ने मोआब के मिसये को जाकर मोआब के राजा से कहा मेरे पिता को आकर अपने पास तब लौं रहने दो जब लो कि मैं न जानूँ कि परमेश्वर मेरे लिये क्या करेगा । सो वह उन को मोआब के राजा के सम्मुख ले गया और जब लौं दाऊद उस गढ़ में रहा तब लौं वे उस के पास रहे । फिर गाद नाम नबी ने दाऊद से कहा इस गढ़ में मत रह चल यहूदा के देश में जा सो दाऊद चलकर हेरेत के बन में गया ॥
- ६ तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उस के संगियों का पता लगा है । उस समय शाऊल गिबा के ऊँचे स्थान पर एक भ्राऊ के तले हाथ में अपना भाला लिये हुए बैठा था और उस के सब कर्मचारी उस के आसपास खड़े थे । सो शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उस के आसपास खड़े थे कहने लगा हे बिन्यामीनियो सुनो क्या यिशी का पुत्र तुम सभों को खेत और दाख की बारियां देगा क्या वह तुम सभों को सहस्रपति और शतपति करेगा । तुम सभों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है और जब मेरे पुत्र ने यिशी के पुत्र से वाचा बांधा तब किसी ने मुझ पर प्रगट नहीं किया और तुम में से किसी ने मेरे लिये शोकित होकर मुझ पर प्रगट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने का उभारा है जैसा आज कल लगाये हैं ।
- ९ तब एदोमी दौएग ने जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था उत्तर देकर कहा मैंने तो यिशी के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलोक के पास आते देखा ।
- १० और उस ने उस के लिये यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोल्यत की तलवार भी दी । सो राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलोक याजक को और उस के पिता के सारे घराने को अर्थात् नोब में रहनेहारे याजकों के कुलवा मेजा और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आये तब शाऊल ने कहा, हे अही-  
१२ तू के पुत्र सुन वह बोला हे प्रभु क्या आज्ञा । शाऊल ने उस से पूछा क्या कारण है कि तू और यिशी के पुत्र

दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है तू ने उसे रोटी और तलवार दी और उस के लिये परमेश्वर से पूछा भो जिउ से वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आजकल लगाये है । अहीमेलोक ने राजा को उत्तर देकर कहा तेरे सारे कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास-योग्य कौन है वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में हाजिर हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है । क्या मैं ने आज ही उस के लिये परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है यह मुझ से दूर रहे राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए न मेरे पिता के सारे घराने पर क्योंकि तेरा दास इस सारे बखेड़े के विषय कुछ भो नहीं जानता । राजा ने कहा हे अहीमेलोक तू और तेरे पिता का सारा घराना निश्चय मार डाला जाएगा । फिर राजा ने उन पहरुकों से जो उस के आसपास खड़े थे कहा मुंह फेरके यहोवा के याजकों को मार डालो क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की और उस का भागना जानने पर भी मुझ पर प्रगट नहीं किया । पर राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिये हाथ बढ़ाना न चाहते थे । सो राजा ने दौएग से कहा तू मुंह फेरके याजकों को मार डाल तब एदोमी दौएग ने मुंह फेरा और उसी ने याजकों को मारा और उस दिन सनीवाला एपोद पहिने हुए पचासी पुरुषों की घात किया । और याजकों के नगर नोब को उस ने स्त्रियों पुरुषों बालबच्चो दूधपिउवों बैलों गदहों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा । पर अहीतूब के पुत्र अहीमेलोक का एब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया । तब एब्यातार ने दाऊद का बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों को बध किया, और दाऊद ने एब्यातार से कहा जिस दिन एदोमी दौएग वहाँ था उसी दिन मैं ने जान लिया कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा तेरे पिता के सारे घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ । तू मेरे साथ निडर रहा कर मेरे प्राण का गाहक तेरे प्राण का भी गाहक है पर मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी ॥

**२३. और** दाऊद को यह समाचार मिला

कि पलिश्ती लोग कीला नगर से लड़ रहे और खलिहानों को लूट रहे हैं । सो दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूँ यहोवा ने दाऊद से कहा जा और पलिश्तियों की मार के कीला को बचा । पर दाऊद के जनों ने उस से कहा हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं सो यदि हम

(१) मूल में कौटा और बन्ना ।

- कीला जाकर पल्लितियों की सेना का साम्हना करें तो  
 ४ बहुत अधिक डर में पड़ेंगे। सो दाऊद ने यहोवा से फिर  
 पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा कमर बांधकर  
 कीला को जा क्योंकि मैं पल्लितियों को तेरे हाथ में कर  
 ५ दूंगा। सो दाऊद अपने जनों को संग लेकर कीला को  
 गया और पल्लितियों से लड़कर उन के पशुओं को हांक  
 लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा यों दाऊद ने कीला के  
 ६ निवासियों को बचाया। जब अहीमेलैक का पुत्र एब्द्या-  
 तार दाऊद के पास कीला को भाग गया तब हाथ में  
 एपोद लिये हुए गया था ॥
- ७ तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद  
 कीला को गया है और शाऊल ने कहा परमेश्वर ने उसे  
 मेरे हाथ में कर दिया है वह तो फाटक और बँड़ेवाले  
 ८ नगर में घुसकर बन्द हो गया है। सो शाऊल ने अपनी  
 सारी सेना को लड़ाई के लिये बुलवाया कि कीला को  
 ९ जाकर दाऊद और उस के जनों को घेर ले। तब दाऊद  
 ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा  
 है सो उस ने एब्द्यातार याजक से कहा एपोद को  
 १० निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा हे इस्राएल के परमे-  
 श्वर यहोवा तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल  
 मेरे कारण कीला नगर नाश करने को आने चाहता है।  
 ११ क्या कीला के लोग मुझे उस के वश में कर देंगे क्या  
 जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा हे  
 इस्राएल के परमेश्वर यहोवा अपने दास को यह बता।  
 १२ यहोवा ने कहा हां वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा  
 क्या कीला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के  
 १३ वश में कर देंगे यहोवा ने कहा हां वे कर देंगे। तब दाऊद  
 और उस के जन जो कोई छुः सौ थे कीला से निकल गये  
 और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहाँ गये और जब  
 शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला से निकल  
 भागा है तब उस ने वहाँ जाने की मनसा छोड़ दी ॥
- १४ सो दाऊद तो जंगल के गढ़ों में रहने लगा  
 और पहाड़ी देश में के जीप नाम जंगल में रहा और  
 शाऊल उसे दिन दिन ढूँढ़ता रहा परन्तु परमेश्वर  
 १५ ने उसे उस के हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद  
 ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला  
 और दाऊद जीप नाम जंगल के होरेश नाम स्थान में था,  
 १६ कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उस के पास होरेश  
 में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उस को हियाव  
 १७ बंधाया। उस ने उस से कहा मत डर क्योंकि तू मेरे  
 पितः शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इस्राएल

(१) मूल में परमेश्वर ने उस के हाथ बलों किये।

का राजा होगा और मैं तेरे नीचे दूँगा और इस बात को  
 मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने १८  
 यहोवा की किरिया लाकर<sup>१</sup> आपस में बाचा बांधी, तब  
 दाऊद होरेश में रह गया और योनातान अपने घर चला  
 गया। तब जीपी लोग गिवा में शाऊल के पास जाकर १९  
 कहने लगे दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में अर्थात्  
 उस हकीला नाम पहाड़ी पर छिपा रहता है जो यशी-  
 मोन की दम्बिन और है। सो अब हे राजा तेरी जो २०  
 इच्छा आने की है सो आ और उस को राजा के हाथ में  
 पकड़वा देना हमारा काम होगा। शाऊल ने कहा यहोवा २१  
 की आशिष तुम पर हो क्योंकि तुम ने मुझ पर दया  
 की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और २२  
 देख भालकर जान लो और उस के अङ्गु का पता लगा  
 लो और दूँको कि उस को वहाँ किस ने देखा है क्योंकि  
 किसी ने मुझ से कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम  
 करता है। सो जहाँ कहीं वह छिपा करता है उन सब २३  
 स्थानों को देख देखकर पहिचानो तब निश्चय करके मेरे  
 पास लौट आना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और यदि  
 वह उस देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों  
 में से ढूँढ़ निकालूँगा। सो वे चलकर शाऊल से पहिले २४  
 जीप के गये पर दाऊद अपने जनों समेत माओन नाम  
 जंगल में चला गया था जो अरावा में यशीमोन की  
 दम्बिन और है। सो शाऊल अपने जनों को साथ लेकर २५  
 उस की खोज में गया। इस का समाचार पाकर दाऊद  
 ढांग पर से उतर के माओन जंगल में रहने लगा यह सुन  
 शाऊल ने माओन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल २६  
 तो पहाड़ की एक आर और दाऊद अपने जनों समेत  
 पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था और दाऊद शाऊल के  
 डर के मारे जल्दी जा रहा था और शाऊल अपने जनों  
 समेत दाऊद और उस के जनों को पकड़ने के लिये घेरा  
 चाहता था, कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा २७  
 फुर्ती से चला आ क्योंकि पल्लितियों ने देश पर चढ़ाई  
 की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर २८  
 पल्लितियों का साम्हना करने को चला इस कारण उस  
 स्थान का नाम सेलाहम्महलकोत<sup>२</sup> पड़ा। वहाँ से दाऊद २९  
 चढ़कर एनगदी के गढ़ों में रहने लगा ॥

२४. जब शाऊल पल्लितियों का पीछा  
 करके लौटा तब उस को यह  
 समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। सो २  
 शाऊल सारे इस्राएलियों में से तीन हजार को छांटकर

(१) मूल में यहोवा के साम्हने।

(२) अर्थात्, बच निकलने को ढांग।

दाऊद और उस के जनों को बनैले बकरों की चटानों पर  
 ३ खोजने गया । जब वह मार्ग पर के मेड़सालों के पास  
 पहुंचा जहां एक गुफा थी तब शाऊल दिशा फिरने को  
 उस के भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाऊद  
 ४ और उस के जन बैठे हुए थे । तब दाऊद के जनों ने उस  
 से कहा सुन आज वही दिन है जिस के विषय यहोवा  
 ने तुझ से कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप  
 दूंगा कि तू उस से मनमाना कर ले । तब दाऊद ने उठकर  
 ५ शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया । इस के  
 पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया १,  
 ६ और अपने जनों से कहने लगा यहोवा न करे कि मैं  
 अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं  
 कि उस पर हाथ चलाऊं क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त  
 ७ है । ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को धुड़का  
 और उन्हें शाऊल की कुछ हानि करने को उठने न  
 दिया । फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना  
 ८ मार्ग लिया । उस के पीछे दाऊद भी उठकर गुफा से  
 निकला और शाऊल को पीछे से पुकार के बोला हे मेरे  
 प्रभु हे राजा । जब शाऊल ने फिरके देखा तब दाऊद ने  
 ९ भूमि की ओर सिर झुकाकर दण्डवत् की । और दाऊद  
 ने शाऊल से कहा जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी  
 १० हानि चाहता है उन की तू क्यों सुनता है । देख आज  
 तू ने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा  
 में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था और किसी किसी ने तो  
 मुझ से तुझे मारने को कहा था पर मुझे तुझ पर तरस  
 आया और मैं ने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ न चलाऊंगा  
 ११ क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है । फिर हे मेरे पिता  
 देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख मैं ने तेरे  
 बागे की छोर तो काट ली पर तुझे घात न किया इस  
 से निश्चय करके जान ले कि मेरे मन<sup>२</sup> में कोई बुराई  
 वा अपराध का सोच नहीं है और मैं ने तेरा कुछ अपराध  
 नहीं किया पर तू मेरा प्राण लेने का मानो उस का  
 १२ अहेर करता रहता है । यहोवा मेरा तेरा विचार करे  
 और यहोवा तुझ से मेरा पलटा ले पर मेरा हाथ तुझ  
 १३ पर न उठेगा । प्राचीनों के नीतिवचन के अनुसार  
 दुष्टता दुष्टों से होती है पर मेरा हाथ तुझ पर न  
 १४ उठेगा । इस्राएल का राजा किस का पीछा करने को  
 निकला है और किस के पीछे पड़ा है एक मरे कुत्ते के  
 १५ पीछे एक पिस्त के पीछे । सो यहोवा न्यायी होकर  
 मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकद्मा

(१) मूल में दाऊद के मूढ़ ने उसे मारा ।

(२) मूल में हाथ ।

लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए ।  
 दाऊद शाऊल से ये बातें कही चुका था कि शाऊल ने १६  
 कहा हे मेरे बेटे दाऊद क्या यह तेरा बोल है तब  
 शाऊल चिन्हाकर रोने लगा । फिर उस ने दाऊद से १७  
 कहा तू मुझ से अधिक धर्मी है तू ने तो मेरे साथ  
 भलाई की है पर मैं ने तेरे साथ बुराई की । और तू ने १८  
 आज यह प्रगट किया है कि तू ने मेरे साथ भलाई की  
 है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तू  
 ने मुझे घात न किया । भला क्या कोई मनुष्य अपने १९  
 शत्रु को पाकर कुशल से चले जाने देता है सो जो तू  
 ने आज मेरे साथ किया है इस का अच्छा बदला यहोवा  
 तुझे दे । और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय २०  
 राजा हो जाएगा और इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में  
 स्थिर होगा सो अब मुझ से यहोवा की किरिया खा २१  
 कि मैं तेरे वंश को तेरे पीछे नाश न करूंगा और तेरे  
 पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूंगा । सो २२  
 दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही किरिया खाई । तब  
 शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों  
 समेत गढ़ों को चढ़ गया ॥

२५. और शमूएल मर गया और सारे

इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उस  
 के लिये छाती पीटी और उस के घर ही में जो रामा में  
 था उस को मिट्टी दी । तब दाऊद चलकर पारान जंगल  
 को चला गया ॥

माओन में एक पुरुष रहता था जिस का माल २  
 कर्मेल में था और वह पुरुष बहुत बड़ा था और उस के  
 तीन हजार भेड़ें और एक हजार बकरियां थीं और वह  
 अपनी भेड़ों का उन कतरा रहा था । उस पुरुष का नाम ३  
 नाबाल और उस की स्त्री का नाम अबीगैल था स्त्री तो  
 बुद्धिमान और रूपवान् थी पर पुरुष कठोर और बुरे बुरे  
 काम करनेहारा था वह तो कालेबवंशी था । जब दाऊद ४  
 ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का  
 उन कतरा रहा है, तब दाऊद ने दस जवानों को वहां भेज ५  
 दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा कि कर्मेल में  
 नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उस का कुशलक्षेम  
 पूछो । और उस से यों कहो कि तू चिरंजीव रहे तेरा ६  
 कल्याण रहे और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो  
 कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे । मैं ने सुना है कि जो ७  
 तू उन कतरा रहा है तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे  
 और न तो हम ने उन की कुछ हानि की<sup>२</sup> न उन का  
 कुछ खोया गया । अपने जवानों से यह बात पूछ ले ८

(३) मूल में उन की लजवाया ।



और वे तुझ को बताएंगे सो इन जवानों पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो हम तो आनन्द के समय में आये हैं सो जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे । ऐसी ऐसी बातें दाऊद के जवान जा ९  
 १० उस के नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे । नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उन से कहा दाऊद कौन है यिश्त का पुत्र कौन है आज कल बहुत से दास ११  
 अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं । क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैं ने अपने कतरनेहारों के लिये मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिन को मैं १२  
 नहीं जानता कि कहाँ के हैं । सो दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौट कर उस को ये १३  
 सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दीं । तब दाऊद ने अपने जनों से कहा अपनी अपनी तलवार बांध लो सो उन्होंने १४  
 ने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली और कोई चार सो पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और दो सौ सामान के पास रह गये । १५  
 पर एक सेवक ने नाबाल की स्त्री अबीगैल को बताया कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिये दूत भेजे थे और उस ने उन्हें ललकार दिया । १६  
 पर वे मनुष्य हम से बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उन के साथ आया जाया करते थे तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई १७  
 न हमारा कुछ खोया गया । जब तक हम उन के साथ भेड़ बकरियाँ चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे । सो अब सोच कर विचार कर कि क्या करना चाहिये क्योंकि उन्होंने ने हमारे स्वामी की और उस के सारे घराने की हानि ठानी होगी वह तो ऐसा दुष्ट है १८  
 कि उस से कोई बोल भी नहीं सकता । तब अबीगैल ने फुर्ती से दो सौ रोटी दो कुर्पी दाखमधु पांच भेड़ियों का मांस पांच सन्ना भूना हुआ अनाज एक सौ गुच्छे किशमिश और अंजीरी की दो सौ टिकियाँ लेकर गदहों १९  
 पर लदवाई, और उस ने अपने जवानों से कहा तुम मेरे आगे आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ पर २०  
 उस ने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा । वह गदहे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरा जाती थी कि दाऊद अपने जनों समेत उस के साम्हने उतरा आता २१  
 था सो वह उन को मिली । दाऊद ने तो सोचा था कि मैं ने जो जंगल में उस के सारे माल की ऐसी रक्षा की

कि उस का कुछ नहीं खो गया यह निःसंदेह व्यर्थ हुआ क्योंकि उस ने भलाई के पलटे मुझ से बुराई ही की है । यदि बिहान को उजियाले होने तक उस जन के सारे लोगों २२  
 में से एक लड़के को भी मैं जीता छोड़ूँ तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा धरन इस से भी अधिक करे । दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गदहे पर से उतर २३  
 पड़ी और दाऊद के सन्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरके दण्डवत् की । फिर वह उस के पाँव पर गिरके कहने २४  
 लगी हे मेरे प्रभु यह अपराध मेरे ही सिर पर हो तेरी दासी तुझ से कुछ कहने पाए और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले । मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त २५  
 न लगाए क्योंकि जैसा उस का नाम है वैसा वह आप है उस का नाम तो नाबाल है और सचमुच उस में मूढ़ता पाई जाती है पर मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तू ने भेजा था न देखा था । और २६  
 अब हे मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की सोह और तेरे जीवन की सोह कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रक्खा है इसलिये अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहनेहारे नाबाल ही के समान ठहरे । और अब यह भेंट जो तेरी दासी २७  
 अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जाँ मेरे प्रभु के साथ चलते हैं । अपनी दासी का २८  
 अपराध क्षमा कर क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का धर बसाएगा और स्थिर करेगा इसलिये कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई न पाई जाएगी । और यद्यपि एक मनुष्य तेरा २९  
 पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है तभी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवनरूपी गठरी में बन्धा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राण को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा । सो जब यहोवा ३०  
 मेरे प्रभु के लिये वह सारी भलाई करेगा जो उस ने तेरे विषय में कहे हैं और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके उहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना वा मेरे ३१  
 प्रभु को छ्ताती धकधकाना न पड़ेगा कि तू ने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया है फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना । दाऊद ने अबीगैल से कहा ३२  
 इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिस ने आज के दिन तुझे मेरी भेंट के लिये भेजा है । और तेरा विवेक ३३  
 धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तू ने मुझे आज

(१) मूल में विश्राम किया ।

(२) मूल में न हम लजवाये गये ।

(३) यह नपुंर विशेष का नाम है ।

(४) अर्थात् मुझे ।

(५) मूल में हृदय का ठोकर खाना न ।

के दिन खून करने और अपना पलटा आप लेने  
 ३४ से रोक लिया है । क्योंकि सचमुच इस्राएल का पर-  
 मेश्वर यहोवा जिस ने मुझे तेरी हानि करने से रोक है  
 उस के जीवन की सोह यदि तू फुर्ती करके मुझ से भेंट  
 करने को न आती तो निःसन्देह विहान को उजियाले  
 होने लौ नाबाल का कोई लड़का भी न बचता ।  
 ३५ तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उस के लिये लाई  
 थी फिर उस से उस ने कहा अपने घर कुशल से जा  
 सुन मैं ने तेरी बात मानी और तेरी विनती अंगीकार की  
 ३६ है । सो अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या  
 देखती है कि वह घर में राजा की सी जेवनार कर रहा  
 है और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अति  
 चूर हो गया है सो उस ने भीर के उजियाले होने से  
 ३७ पहिले उस से कुछ भी<sup>१</sup> न कहा । विहान को जब  
 नाबाल का नशा उतर गया तब उस की स्त्री ने उसे  
 साग हाल सुना दिया तब उस के मन का हियाब जाता  
 ३८ रहा<sup>२</sup> और वह पत्थर सा मुझ हो गया । और दस एक  
 दिन के पीछे यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर  
 ३९ गया । नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा  
 धन्य है यहोवा जो नाबाल के साथ मेरी नामधराई का  
 मुकद्दमा लड़ा और अपने दास को बुराई से रोक रक्खा  
 और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर  
 लौटा दिया है । तब दाऊद वे लोगों को अबीगैल के  
 पास इसलिये भेजा कि वे उस से उस की स्त्री होने की  
 ४० बातचीत करें । सो जब दाऊद के सेवक कर्मेल को  
 अबीगैल के पास पहुँचे तब उस से कहने लगे दाऊद ने  
 हमें तेरे पास इसलिये भेजा है कि तू उस की स्त्री बने ।  
 ४१ तब वह उठी और मुँह के बल भूमि पर गिर दण्डवत्  
 करके कहा तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण  
 ४२ घोने के लिये लौंडी बने । तब अबीगैल फुर्ती से उठी  
 और गद्दे पर चढ़ी और उस की पांच सहेलियां उस के  
 पीछे पीछे हो लीं और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे  
 ४३ गई और उस का स्त्री हो गई । और दाऊद ने यिञ्जेल  
 नगर की अहिनीअम को भी ब्याह लिया सो वे दोनों  
 ४४ उम की स्त्रियां हुईं । पर शाऊल ने अपनी बेटां दाऊद  
 की स्त्री मीकल को लैश के पुत्र गल्लीमवासी पलती  
 को दे दिया था ॥

**२६. फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के**

पास जाकर कहने लगे क्या  
 दाऊद उस हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन के साम्हने

(१) मूल में छोटा और बड़ा कुछ । (२) मूल में उस का हृदय  
 उसके अन्तर में भर गया ।

है छिपा नहीं रहता । तब शाऊल उठकर इस्राएल के २  
 तीन हजार छुटे हुए योद्धा संग लिये हुए गया कि  
 दाऊद को जीप के जंगल में खोजे । और शाऊल ने अपनी ३  
 छावनी मार्ग के पास हकीला पहाड़ी पर जो यशीमोन के  
 साम्हने है डाली पर दाऊद जंगल में रहा और उस ने  
 जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में  
 आया है । सो दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर ४  
 लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है । तब दाऊद उठ  
 ५ उस स्थान पर गया जहां शाऊल पड़ा था और दाऊद ने  
 उस स्थान को देखा जहां शाऊल अपने सेनापति नेर के  
 पुत्र अन्नेर समेत पड़ा था शाऊल तो गाड़ियों की  
 आड़ में पड़ा था और उस के लोग उस के चारों ओर  
 डेरे डाले हुए थे । सो दाऊद ने हित्ती अर्हामेलिक और ६  
 जरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा मेरे साथ  
 उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा अबीशै ने  
 कहा तेरे साथ मैं चलूंगा । सो दाऊद और अबीशै रातों ७  
 रात उन लोगों के पास गये और क्या देखते हैं कि  
 शाऊल गाड़ियों की आड़ में सोया हुआ पड़ा है और  
 उस का भाला उस के सिर्हाने भूमि में गड़ा है और  
 अन्नेर और और लोग उस के चारों ओर पड़े हुए हैं ।  
 तब अबीशै ने दाऊद से कहा परमेश्वर ने आज तेरे ८  
 शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है सो अब मैं उस को एक  
 बार ऐसा मारूँ कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धस  
 जाए और मुझ को उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा ।  
 दाऊद ने अबीशै से कहा उसे नाश न कर क्योंकि यहोवा ९  
 के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष उठर  
 सकता । फिर दाऊद ने कहा यहोवा के जीवन की सोह १०  
 यहोवा ही उस को मारेगा वा वह अपनी मृत्यु से  
 मरेगा<sup>३</sup> वा वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा । यहोवा न ११  
 करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर बढ़ाऊँ  
 अब उस के सिर्हाने से भाला और पानी की भारी उठा  
 ले और हम चले जाएं । तब दाऊद ने भाले और पानी १२  
 की भारी को शाऊल के सिर्हाने से उठा लिया और वे  
 चले गये और किसी ने इसे न देखा और न जाना न  
 कोई जागा क्योंकि वे सब इस कारण से सोते थे कि  
 यहोवा की ओर से उन को भारी नींद पड़ गई थी ।  
 तब दाऊद परली और जाकर वूर के पहाड़ की चोटी १३  
 पर खड़ा हुआ और दोनों के बीच बड़ा अन्तर था ।  
 और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अन्नेर को १४  
 पुकार के कहा हे अन्नेर क्या तू नहीं सुनता अन्नेर ने  
 उत्तर देकर कहा तू कौन है जो राजा को पुकारता है ।

(३) मूल में उस का दिन आया और वह मरेगा ।

- १५ दाऊद ने अन्नोर से कहा क्या तू पुरुष नहीं है इस्राएल में तें तुन्ध कौन है तू ने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने हुआ था । जो काम तू ने किया है वह अच्छा नहीं यहोवा के जीवन का सोह तुम लोग मार डालने के योग्य हो क्योंकि तुम ने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की और अब देख राजा का भाला और पानी का भारी जो उस के सिर्हाने था सो कहाँ है । तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहिचानकर कहा हे मेरे बेटे दाऊद क्या यह तेरा बोल है दाऊद ने कहा हां मेरे प्रभु राजा मेरा ही बोल है । फिर उस ने कहा मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है मैं ने क्या किया है और मुझ से कौन सी बुराई हुई है<sup>१</sup> । अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले । यदि यहोवा ने तुम्हें मेरे विरुद्ध उभाराया हो तब तो वह भेंट ग्रहण करे<sup>२</sup> पर यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से क्षापित हों क्योंकि उन्होंने ने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में न रहूँ और उन्होंने ने कहा है कि जा पराये देवताओं की उपासना कर ।
- २० सो अब मेरा लोहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर न बहने<sup>३</sup> पाए इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू डूँढ़ने आया है जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का अहेर करे । शाऊल ने कहा मैं ने पाप किया है हे मेरे बेटे दाऊद लौट आ मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा इस कारण मैं फिर तेरी कुल्लु हानि न करूँगा सुन मैं ने मूर्खता की और मुझ से बड़ी भूल हुई है । दाऊद ने उत्तर देकर कहा हे राजा भाल को देख
- २३ कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए । यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सब्बाई का फल देगा देख आज यहोवा ने तुम्हें मेरे हाथ में कर दिया था पर मैं ने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ बढ़ाना न चाहा । सो जैसे तेरा प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय<sup>४</sup> ठहरा वैसे ही मेरा प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय
- २५ ठहरें और वह मुझे सारी विपत्तियों से छुड़ाए । शाऊल ने दाऊद से कहा हे मेरे बेटे दाऊद तू धन्य है तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सुफल होंगे । तब दाऊद ने अपना भारग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया ॥

(१) मूल में मेरे हाथ में क्या बुराई है ।

(२) मूल में संघे ।

(३) मूल में गिरने ।

(४) मूल में बड़ा ।

(दाऊद का पलिशित्यों के यहाँ शरण लेना और शाऊल और दानातान का मार जाना)

## २७ और दाऊद सोचने लगा अब मैं

किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा सो मेरे लिये उत्तम यह है कि मैं पलिशित्यों के देश में भाग जाऊँ तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूँढ़ेगा यों मैं उस के हाथ से बच निकलूँगा । सो दाऊद अपने छः सौ संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया । और दाऊद और उस के जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे । दाऊद तो अपनी दो स्त्रियों के साथ अर्थात् यिजेली अहीनोअम और नाबाल की स्त्री कर्मैली अहीमैल के साथ रहा । जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है तब उस ने उसे फिर कभी न ढूँढ़ा ॥

दाऊद ने आकीश से कहा यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे जहाँ मैं रहूँ तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे । सो आकीश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी इस कारण से सिकलग आज के दिन लौ यहूदा के राजाओं का बना है ॥

पलिशित्यों के देश में रहते रहते दाऊद को एक बरस चार महीने बीते । और दाऊद ने अपने जनो समेत जाकर गशूरियों गिर्जियों और अमालोकियों पर चढ़ाई की ये जातियाँ तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थीं जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है । दाऊद ने उस देश को नाश किया और स्त्री पुरुष किसी को जीता न छोड़ा और भेड़ बकरा गाय बैल गदहे ऊँट और बखर लेकर लौटा और आकीश के पास गया । आकीश ने पूछा आज तुम ने चढ़ाई तो नहीं की दाऊद ने कहा हां यहूदा यरहमेलियों और केनियों की दक्खिन दिशा में । दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीता न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुँचाएँ उस ने सोचा था कि ऐसा न हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहें कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है बरन जब से वह पलिशित्यों के देश में रहता है तब से उस का काम ऐसा ही है । सो आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा यह अपने इस्राएली लोगों को अति विनीत लगा है सो यह सदा लो मेरा दास बना रहेगा ॥

२८. उन दिनों में पलिशितयों ने इस्राएल से लड़ने के लिये अपनी सेना एकट्टी की और आकीश ने दाऊद से कहा निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा । दाऊद ने आकीश से कहा इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा आकीश ने दाऊद से कहा इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक रूदा के लिये ठहराऊंगा ॥

१ शमूएल ती मर गया था और सारे इस्राएलियों ने उस के विषय छाती पीटी और उस को उस के नगर रामा में मिट्टी दी थी । और शाऊल ने ओर्भां और भूतसिद्धि करनेहारों को देश से निकाल दिया था ॥

४ जब पलिशती इकट्टे हुए सब शूनेम में छावनी डाली और शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्टा किया और

५ उन्होंने ने गिलबी में छावनी डाली । पलिशितयों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उस का मन अत्यन्त थरथरा उठा । और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न ऊरीम न नवियों के द्वारा । सो शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा मरे लिये किसी भूतसिद्धि करनेहारी को खोजो कि मैं उस के पास जाकर उस से पूछूं उस के कर्मचारियों ने उस से कहा एन्दोर में एक भूतसिद्धि

८ करनेहारी रहती है । तब शाऊल ने अपना मेष बदला और दूसरे कपड़े पहिनकर दो मनुष्य संग ले रातोंरात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा अपने सिद्धि भूत से मेरे लिये भावी कहना और जिस का नाम मैं लूंगा

९ उसे बुला ला । स्त्री ने उस से कहा तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है कि उस ने ओर्भां और भूतसिद्धि करनेहारों को देश से नाश किया है फिर तू मेरे प्राण के लिये क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले । शाऊल ने यहोवा की किरिया खाकर उस से कहा यहोवा के जीवन

११ की सोह इस बात के कारण तुझे दण्ड न मिलेगा । स्त्री ने पूछा मैं तेरे लिये किस को बुलाऊँ उस ने कहा शमूएल

१२ को मेरे लिये बुला । जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा तू ने मुझे

१३ क्यों बोला दिया तू तो शाऊल है । राजा ने उस से कहा मत डर तुझे क्या देख पड़ता है स्त्री ने शाऊल से कहा मुझे एक देवता पृथिवी में से चढ़ता हुआ देख पड़ता

१४ है । उस ने उस से पूछा उसका कैसा रूप है उस ने कहा एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है सो शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है औंवे मुंह भूमि

(१) मूल में चढ़ा । (२) मूल में चढ़ाऊँ ।

पर गिरके दण्डवत् की । शमूएल ने शाऊल से पूछा तू ने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है शाऊल ने कहा मैं बड़े संकट से पड़ा हूँ कि पलिशती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे न तो नवियों के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के सो मैं ने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं । शमू- १६ एल ने कहा जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझ से क्यों पूछता है । यहोवा ने तो जैसे मुझ १७ से कहवाया था वैसा ही उससे व्यवहार किया है अर्थात् उस ने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है । तू ने जो यहोवा की न मानी और न अमा- १८ लोकियों को उस के भड़के हुए कोप के अनुसार दण्ड दिया था इस कारण यहोवा ने तुझ से आज ऐसा बर्ताव किया । फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलि- १९ शितयों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिशितयों के हाथ में कर देगा । तब शाऊल तुरन्त मुंह २० के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यन्त डर गया उस ने सारे दिन और सारी रात को भोजन न किया था इस से उस में बल कुछ न रहा । तब स्त्री शाऊल के पास गई और उस को अति २१ व्याकुल देख कर उस से कहा सुन तेरा दासी ने तो तेरी बात माना और मैं ने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तू ने मुझ से कहे । सो अब तू भी २२ अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे साम्हने एक टुकड़ा रोटी रखूँ तू उसे खाना कि जब तू अग्ना मार्ग ले सके तब तुझे बल आ जाए । उस ने नकारके कहा २३ मैं न खाऊंगा पर उस के सेवकों आर स्त्री ने मिलकर यहां लों उसे दबाया कि वह उन की बात मान भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया । स्त्री के घर में तो एक तैयार २४ किया हुआ बछड़ा था सो उस ने कुर्ती कर के उसे मारा फिर आटा लेकर गूंघा और अखमीरा रोटी बनाकर, शाऊल और उस के सेवकों के आगे लाई और उन्हों २५ ने खाया तब वे उठकर उसी रात चले गये ॥

२६. पलिशितयों ने अपनी सारी सेना

को अनेक में इकट्टा किया और इस्राएली यिज्जेल के निकट के सौते के पास खेर डाले हुए थे । तब पलिशितयों के सरदार अपने २ अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गये और सेना की पिछाड़ी में आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया । सो पलिशती हाकिमों ने पूछा उन इत्रियों ३ का यहां क्या काम है आकीश ने पलिशती सरदारों से कहा

क्या वह इस्राएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है जो क्या जाने कितने दिनों से बरन बरसों से मेरे साथ रहता है और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैं ने उस में कोई दोष नहीं पाया । तब पलिश्ती हाकिम उस से क्रोधित हुए और उस से कहा उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तू ने उस के लिये ठहराया है वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे क्या लोगों के

५ सिर कटवाकर न करेगा । क्या वह वही दाऊद नहीं है जिस के विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे कि

शाऊल ने हजारों को

पर दाऊद ने लाखों को मारा है ॥

६ तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उस से कहा यहीवा के जीवन की सोह तू तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैं ने तो तुझ में कोई बुराई नहीं पाई ती भी सरदार लोग तुझे ७ नहीं चाहते । सो अब तू कुशल से लौट जा न हो कि ८ पलिश्ती सरदार तुझ से अप्रयत्न हों । दाऊद ने आकीश से कहा मैं ने क्या किया है और जब से मैं तेरे साम्हने आया तब से आज लौ तू ने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने न पाऊं । ९ आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा हां यह मुझे मांजूस है तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है तौभा पलिश्ती हाकिमों ने कहा है कि १० वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा । सो अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आये हैं ११ बिहान को तड़के उठना और तुम बिहान को तड़के उठ कर उजियाला होते ही चले जाना । सो बिहान को दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर पलिश्तियों के देश को लौट गया । और पलिश्ती यिज्जेल को चढ़ गये ॥

३०. तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुँचा तब

उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्खिन देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मारके फूक १ दिया, और उस में के रूही आदि छोटे बड़े जितने थे सब को बंधुआई में ले गये उन्होंने किसी को मार तो २ नहीं डाला सभी को ले कर अपना मार्ग लिया । सो जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुँचा तब नगर

तो जला पड़ा था और स्त्रियाँ और बेटे बेटियाँ बंधुआई में चली गई थीं । सो दाऊद और वे लोग जो उस के साथ थे चिल्लाकर इतना रोये कि फिर उन्हें रोने की शक्ति न रही । और दाऊद की दो स्त्रियाँ यिज्जेली अहीनोअम और कर्गेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में गई थीं । और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटों बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरबाह करने की चर्चा कर रहे थे पर दाऊद ने अपने परमेश्वर यहीवा को स्मरण करके १ हियाव बान्धा ॥

तब दाऊद ने अर्माभेलेक के पुत्र एब्द्यातार याजक से कहा एषोद को मेरे पास ला सो एब्द्यातार एषोद को दाऊद के पास ले आया । और दाऊद ने यहीवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूँ क्या उस का पकड़ूँगा उस ने उस से कहा पीछा कर क्योंकि तू निश्चय उस को पकड़ेगा और निःसन्देह सब कुछ छुड़ा लाएगा । तब दाऊद अपने छः सौ साथी जनों को लेकर बसोर नाम नाले तक पहुँचा । वहाँ कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए । दाऊद तो चार सौ पुरुषों समेत पीछा किये चला गया पर दो सौ जो ऐसे थक गये थे कि बसोर नाले के पार न जा सके वहाँ रहे । उन को एक मिस्र पुरुष मैदान में मिला सो उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उस ने उसे खाया तब उसे पानी पिलाया । फिर उन्होंने ने उस को अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और दो गुच्छे किशमिश दिये और जब उस ने खाया तब उस के जी में जी आया उस ने तीन दिन और तीन रात से न तो रोटी खाई न पानी पिया था । तब दाऊद ने उस से पूछा तू किस का जन है और कहा का है उस ने कहा मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ और तीन दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया । हम लोगों ने करेतियों की दक्खिन दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्खिन दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को घाग लगा कर फूंक दिया था । दाऊद ने उस से पूछा क्या तू मुझे उस दल के पास पहुँचा देगा उस ने कहा मुझ से परमेश्वर की यह किरिया खा कि मैं तुझे न तो प्राण से मारूँगा और न तेरे स्वामी के हाथ कर दूँगा तब मैं तुझे उस दल के पास पहुँचा दूँगा । जब उध ने उसे पहुँचाया तब देखने में क्या आया कि वे सारी भूमि पर छिड़के हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा देश से लाये थे नाच रहे हैं । सो

(१) मूल में यहीवा में ।

दाऊद उन्हें रात के पहिले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा यहाँ लों कि चार सौ जबान छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गये उन में से एक भी मनुष्य न बचा । और जो कुछ अमालेकी ले गये थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया । बरन उन के क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटियाँ क्या लूट का माल सब कुछ जी अमालेकी ले गये थे उस में से कोई वस्तु न रही जो उन को न मिली हो क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया । और दाऊद ने सब मेड़ बकरियाँ और गाय बैल भी लूट लिये और इन्हें लोग यह कहते हुये अपने दोरों के आगे हांकते गये कि यह दाऊद की लूट है । तब दाऊद उन दौ सौ पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गये थे कि दाऊद के पीछे पीछे न जा सके थे और बसोर नाते के पास छोड़ दिये गये थे और वे दाऊद से और उस के संग के लोगों से मिलने को चले और दाऊद ने उन के पास पहुँच कर उन का कुशल ज्ञेय पूछा । तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गये थे सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा वे लोग हमारे साथ न चले थे इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाये हुए लूट के माल में से कुछ न देंगे केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाएँ । पर दाऊद ने कहा हे मेरे भाइयो तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है और उस ने हमारी रक्षा की और उस दल को जिस ने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है । और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा लड़ाई में जानेहारों का जैसा भाग हो सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा दोनों एक ही समान भाग पाएँगे । और दाऊद ने इस्राएलियों के लिये ऐसी ही विधि और नियम ठहराया और वह उस दिन से लेकर आगे को बरन आज लों बना है ॥

२६ सिकलग में पहुँचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उस के मित्र थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा और यह कहलाया कि यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिये यह भेंट है । अर्थात् बेतेल २७ दक्खिन देश में के रामोत यत्तीर, अरोएर सिपमोत २८ एश्तमो, राकाल यरहमेलियों के नगरों केनियों के नगरों, ३०, ३१ होर्मा कोराशान अत्ताक, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था उन सब के पुरनियों के पास उस ने कुछ कुछ भेजा ॥

### ३१. पलिशती तो इस्राएलियों से लड़े और

इस्राएली पुरुष पलिशतियों के साम्हने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गये । और पलिशती शाऊल और उस के पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिशतियों ने शाऊल के पुत्र योनातान अवीनादाब और मल्कीश को मार डाला । और शाऊल के साथ लड़ाई और भारी होती गई और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उन के कारण अत्यन्त व्याकुल हो गया । तब शाऊल ने अपने हथियार दोनेहारे से कहा अपनी तलवार खींचकर मेरे भोंक दे ऐसा न हो कि वे खतनारहित लोग आकर मेरे भोंक दें और मेरा ठट्टा करें । पर उस के हथियार दोनेहारे ने अत्यन्त भय खाकर ऐसा करना नकारा तब शाऊल अपनी तलवार खींचकरके उस पर गिर पड़ा । यह देख कर कि शाऊल मर गया उस का हथियार दोनेहारा भी अपनी तलवार पर आप गिरके उस के साथ मर गया । यों शाऊल और उस के तीनों पुत्र और उस का हथियार दोनेहारा और उस के सारे जन उसी दिन एक संग मर गये । यह देखकर कि इस्राएली पुरुष भाग गये और शाऊल और उस के पुत्र मर गये उस तराई की परती आँरवाले और यर्दन के पारवाले भी इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़ भाग गये और पलिशती आकर उन में रहने लगे ॥

दूसरे दिन जब पलिशती मारे हुआँ के माल को लूटने आये तब उन को शाऊल और उस के तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले । सो उन्होंने ने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिये और पलिशतियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिये भेजा कि उन के देवाल्यों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएँ । तब उन्होंने ने उस के हथियार तो आश्तोरेत नाम देवियों के मन्दिर में रखे और उस की लोथ बेतशान की शहरपनाह में जड़ दी । जब गिलाद में के याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिशतियों ने शाऊल से क्या क्या किया है तब सब शूरवीर चले और रातों-रात जाकर शाऊल और उस के पुत्रों की लोथें बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आये और वहीं फूंक दीं । तब उन्होंने ने उन की हड्डियाँ लेकर याबेश में के भ्राऊ के नीचे गाड़ दीं और सात दिन का उपवास किया ॥

# शमूएल नाम दूसरी पुस्तक ।

(दाऊद का शाऊल के खून का दण्ड देना)

## १. शाऊल के मरने के पीछे जब दाऊद अमालेकियों को मार के लौटा

- २ और दाऊद को सिकलग में रहते दो दिन हो गये, तब तीसरे दिन छावनी में से शाऊल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूलि डाले हुए आया और जब वह दाऊद के पास पहुँचा तब भूमि पर गिर के दरडवत् ३ की। दाऊद ने उस से पूछा तू कहां से आया है उस ने उस से कहा मैं इस्राएली छावनी में से बच ४ कर आया हूँ। दाऊद ने उस से पूछा वहां क्या बात हुई मुझे बता उस ने कहा यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गये और बहुत लोग मारे गये और शाऊल और उस का पुत्र योनातान भी मारे गये हैं। ५ दाऊद ने उस समाचार देनेहारे जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शाऊल और उस का पुत्र योनातान ६ मर गये। समाचार देनेहारे जवान ने कहा संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने ७ भाले की टेक लगाये हुए है फिर मैं ने यह भी देखा कि उस का पीछा किये हुए ४ रथ और सवार बड़े बेग से ८ दौड़े आते हैं। उस ने पीछे फिरके मुझे देखा और मुझे ९ पुकारा मैं ने कहा क्या आज्ञा। उस ने मुझ से पूछा तू १० कौन है मैं ने उस से कहा मैं तो अमालेकी हूँ। उस ने मुझ से कहा मेरे पास<sup>१</sup> खड़ा होकर मुझे मार डाल क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है पर प्राण नहीं १० निकलता<sup>२</sup>। सो मैं ने यह निश्चय करके कि वह गिर जाने के पीछे नहीं बच सकता उस के पास<sup>३</sup> खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उस के सिर का मुकुट और उस के हाथ का कंकन लेकर यहां अपने प्रभु के पास आया ११ हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उस के संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। १२ और वे शाऊल और उस के पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिये छाती पीटने

(१) वा मुझ पर। (२) मूल में मेरा प्राण मुझ में अब लौं समुचा है।  
(३) वा उस पर।

और रोने लगे और सांभ लौं कुछ न खाया इस कारण कि वे तलवार से मारे गये थे। फिर दाऊद ने उस १३ समाचार देनेहारे जवान से पूछा तू कहां का है उस ने कहा मैं तो परदेशी का बेटा अर्थात् अमालेकी हूँ। दाऊद १४ ने उस से कहा तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिये हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा। तब दाऊद ने १५ एक जवान को बुलाकर कहा निकट जाकर उस पर प्रहार कर। सो उस ने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उस से कहा तेरा खून तेरे ही १६ सिर पर पड़े क्योंकि तू ने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है ॥

(शाऊल और योनातान के लिये दाऊद का बनाया हुआ विलापगीत)

तब दाऊद ने शाऊल और उस के पुत्र योनातान १७ के विषय यह विलापगीत बनाया, और यहूदियों को यह १८ धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह थाशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है ॥

हे इस्राएल तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थानों पर १९ मारा गया

शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं।

गत में यह न भताओं

२०

और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचारो

न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनन्दित हों

न हो कि खननारहित लागों की बेटियां हुलसने लगे।

हे गिलबो पहाड़े

२१

तुम पर न ओस पड़े न बरषा हो न भेंट के योग्य उपजवाले खेत पाये जायें

क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गईं

और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाये रह गईं।

जुके हुआ के लोहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी २२ खाने से

योनातान का धनुष लौट न जाता था

और न शाऊल की तलवार छुछी फिर आती थी।

- १३ शाऊल और योनातान जीते जी तो प्रिय और  
मनभाऊ थे  
और मृत्यु के समय अलग न हुए  
वे उकाब से भी वेग चलनेहारे  
और सिंह से अधिक पराक्रमी थे ।
- १४ हे इस्राएली स्त्रियो शाऊल के लिये रोओ  
वह तो तुम्हें लाही रंग के वस्त्र पहिनाकर सुख  
देता  
और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहि-  
नाता था ।
- २५ युद्ध के बीच शूरवीर कैसे गिर गये  
हे योनातान हे ऊंचे स्थानों पर जूके हुए,  
हे मेरे भाई योनातान मैं तेरे कारण दुःख  
में हूँ  
तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था  
तेरा प्रेम मुझ पर अनूप  
बरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था ॥
- २७ शूरवीर क्योंकर गिर गये  
और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गये हैं ।  
(दाऊद के हेब्रोन में राज्य करने का वृत्तान्त)

२. इस के पीछे दाऊद ने यहोवा से पूछा  
कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में

- जाऊँ यहोवा ने उस से कहा हाँ जा दाऊद ने फिर पूछा  
२ किम नगर में जाऊँ उस ने कहा हेब्रोन में । सो दाऊद  
यिज्जेली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अवी-  
३ गैल नाम अपनी दोनों स्त्रियों समेत वहाँ गया । और  
दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत  
४ वहाँ ले गया और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे । और  
यहूदी लोग गये और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया कि  
वह यहूदा के घराने का राजा हो ॥

- और दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्हों ने  
शाऊल को मिट्टी दी सो गिलाद के याबेश नगर के  
५ लोग हैं । सो दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के  
लोगों के पास यह कहला भेजा यहोवा की आशिष तुम  
पर हो क्योंकि तुम ने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा  
६ करके उस को मिट्टी दी । सो अब यहोवा तुम से कृपा  
और सच्चाई का बर्ताव करे और मैं भी तुम्हारी इस  
भलाई का बदला तुम को दूंगा क्योंकि तुम ने यह काम  
७ किया है । और अब हियाव बान्धो और पुरुषार्थ करो  
क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया और यहूदा के  
घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक  
किया है ॥

पर नेर का पुत्र अब्नेर जो शाऊल का प्रधान  
सेनापति था उस ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत को संग ले  
पार जाकर महनैम में पहुँचाया, और उसे गिलाद ९  
अशूरियों के देश यिज्जेल एप्रैम बिन्यामीन बरन सारे  
इसाएल के देश पर राजा किया । शाऊल का पुत्र ईशबो- १०  
शेत चालीस बरस का था जब वह इस्राएल पर राज्य  
करने लगा और दो बरस लों राज्य करता रहा पर  
यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा । और दाऊद के ११  
हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय साढ़े  
सात बरस था ॥

और नेर का पुत्र अब्नेर और शाऊल के पुत्र १२  
ईशबोशेत के जन महनैम से गिबोन को आये । तब १३  
सरुयाह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से  
निकलकर उन से गिबोन के पोखरे के पास मिले और  
दोनों दल उस पोखरे की एक एक ओर बैठ गये । तब १४  
अब्नेर ने योआब से कहा जवान लोग उठकर हमारे  
साम्हने खेलेँ योआब ने कहा अच्छा वे उठे । सो वे उठे १५  
और बिन्यामीन अर्थात् शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पक्ष  
के लिये बारह जन गिनकर निकले और दाऊद के जनों  
में से भी बारह निकले । और उन्होंने ने एक दूसरे का १६  
सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर  
में भोंक दो सो वे एक ही संग मरे इस से उस स्थान का  
नाम हेल्कथस्सुरीम<sup>१</sup> पड़ा वह गिबोन में है । और उस १७  
दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अब्नेर और इस्राएल के  
पुरुष दाऊद के जनों से हार गये । वहाँ तो योआब १८  
अबीशै और असाहेल नाम सरुयाह के तीनों पुत्र थे और  
असाहेल बनैले चिकारे के समान वेग दौड़नेहारा था ।  
सो असाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा और उस का १९  
पीछा करते हुए न तो दहिनी ओर मुड़ा न बाईं ओर ।  
अब्नेर ने पीछे फिरके पूछा क्या तू असाहेल है उस ने २०  
कहा हाँ मैं वही हूँ । अब्नेर ने उस से कहा चाहे २१  
दहिनी चाहे बाईं ओर मुड़ किसी जवान को पकड़कर  
उस का बकतर ले ले पर असाहेल ने उस का पीछा  
छोड़ने से नाह किया । अब्नेर ने असाहेल से फिर २२  
कहा मेरा पीछा छोड़ दे मुझ को क्यों तुम्हें मारके  
मिट्टी में मिला देना पड़े ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब  
को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा । तौ भी उस ने २३  
हट जाने को नकारा सो अब्नेर ने अपने भाले की  
पिछाड़ी उस के पेट में ऐसे मारी कि भाला वारवार होकर  
पीछे निकला सो वह वहीं गिरके मर गया और जितने  
लोग उस स्थान पर आये जहाँ असाहेल गिर के मर गया सो

(१) अर्थात् छूरियों का खेत ।



२४ सब खड़े रहे । पर योआब और अवीशै अन्नेर का पीछा किये रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नाम उस पहाड़ी लों पहुँचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गीह के साम्हने है । और बिन्यामीनी अन्नेर के पीछे होकर एक दल हो गये और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए ।  
 २६ तब अन्नेर योआब को पुकारके कहने लगा, क्या तलवार सदा लों मारती रहे क्या तू नहीं जानता कि इस का कल दुःखदाई<sup>१</sup> होगा तू कब लों अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो । योआब ने कहा परमेश्वर के जीवन की सेह कि यदि तू न बोला होता तो निःसंदेह लोग सबेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते । तब योआब ने नरसिंगा-फूका और सब लोग ठहर गये और फिर इस्त्राएलियों का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की । और अन्नेर अपने जनों समेत उसी दिन रातोंरात अराबा से होकर गया और यर्दन के पार हो सारे बिनोन देश होकर ३० महनेम में पहुँचा । और योआब अन्नेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उस ने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से उन्नीस ३१ पुरुष और असाहेल भी नहीं हैं । पर दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अन्नेर के जनों को ऐसा मारा कि ३२ उन में से तीन सौ साठ जन मर गये । और उन्होंने ने असाहेल को उठाकर उस के पिता के कब्रिस्तान में जो बेतलेहेम में था मिट्टी दी तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पह फटते हेब्रोन में पहुँचा ॥

### ३. शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के बीच बहुत दिन लों लड़ाई

होती रही पर दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया ॥

२ और हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए । उस का जेठा बेटा अम्मोन था जो थिश्बेली अहीनोअम से जन्मा ३ था । और उस का दूसरा किलाब था जिस की मा कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल थी तीसरा अशशालोम जो गशूर के राजा तल्मै की बेटे माका से जन्मा था, ४ चौथा अदोनियाह जो हग्गीत से जन्मा था पांचवां ५ शपत्याह जिस की मा अबीतल थी, छठवां यिनाम जो एस्ला नाम दाऊद की स्त्री से जन्मा । हेब्रोन में दाऊद से ये ही उत्पन्न हुए ॥

६ जब शाऊल और दाऊद दोनों के घरानों के बीच लड़ाई हो रही थी तब अन्नेर शाऊल के घराने की ७ सहायता में बल बढ़ाता गया । शाऊल के तो एक

(१) मूल में कबवाइत ।

रखेली थी जिस का नाम रिस्पा था वह अन्नेर की बेटे थी और ईशबोशेत ने अन्नेर से पूछा तू मेरे पिता की रखेली के पास क्यों गया । ईशबोशेत की बातों के कारण अन्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूँ आज लों मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उस के भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूँ कि तुम्हें दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय दोष लगाता है । यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की किरिया के अनुसार बताव न करूँ तो परमेश्वर अन्नेर से वैसा ही बरन उस से भी अधिक करे । अर्थात् मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूँगा और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बेशंबा लों इस्त्राएल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूँगा । और वह अन्नेर को कोई उत्तर न दे सका इसलिये कि वह उस से डरता था ॥

तब अन्नेर ने उस के नाम से दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा कि देश किस का है और यह भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा बांध और मैं तेरी सहायता करूँगा कि सारे इस्त्राएल के मन तेरी ओर फेर दूँ । दाऊद ने कहा भला मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूँगा पर एक बात मैं तुझ से चाहता हूँ कि जब तू मुझ से मेट करने आए तब यदि तू पहिले शाऊल की बेटे मीकल को न ले आए तो मुझ से मेट न होगी । फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मेरी स्त्री मीकल जिसे मैं ने एक सौ पलिश्तियों की खलधियां देकर अपनी कर लिया था उस को मुझे दे दे । सो ईशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया । और उस का पति उस के साथ चला और बहुरीम लों उस के पीछे रोता हुआ चला गया तब अन्नेर ने उस से कहा लौट जा सो वह लौट गया ॥

और अन्नेर ने इस्त्राएल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बात चीत की कि पहिले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो । सो अब वैसा करो क्योंकि यहेवा ने दाऊद के विषय यह कहा है कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इस्त्राएल को पलिश्तियों बरन उन के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊँगा । फिर अन्नेर ने बिन्यामीन से भी बातें की कि अन्नेर हेब्रोन को चला गया कि इस्त्राएल और बिन्यामीन के सारे घराने को जो कुछ अच्छा लगा सो दाऊद को सुनाए । सो अन्नेर बीस पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया और दाऊद ने उस के और उस के

- २१ संगी पुरुषों के लिये जेवनार की । तब अब्नेर ने दाऊद से कहा मैं उठकर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इस्त्राएल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ बाचा बांधें और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके । सो दाऊद ने अब्नेर को बिदा किया और वह कुशल से चला गया । तब दाऊद के कई एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिये हुए आ गये और अब्नेर दाऊद के पास हेब्रोन में न था क्योंकि उस ने उस को बिदा कर दिया था और वह कुशल से चला गया था । जब योआब और उस के साथ की सारी सेना आई तब लोगों ने योआब को बताया कि नेर का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था और उस ने उस को बिदा कर दिया और वह कुशल से चला गया ।
- २४ सो योआब ने राजा के पास जाकर कहा तू ने यह क्या किया है अब्नेर जो तेरे पास आया था सो क्या कारण है कि तू ने उस को जाने दिया और वह चला गया है । तू नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने और तेरे आने जाने और सारे काम का भेद लेने आया था । योआब ने दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के अनजाने अब्नेर के पीछे दूत भेजे और वे उस को सीरा नाम कुण्ड से लौटा ले आये । जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया तब योआब उस से एकान्त में बातें करने के लिये उस को फाटक के भांतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के पलटे में उस के पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया । इस के पीछे जब दाऊद ने यह सुना तब कहा नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय मैं अपनी प्रजा समेत यहीवा की दृष्टि में सदा निर्दोष रहूंगा । वह योआब और उस के पिता के सारे धराने को लगे और योआब के बंश में प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और बैसाखी का टेक लगानेहारा और तलवार से खेत आने-हारा और भूखों मरनेहारा सदा होते रहें । योआब और उस के भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया कि उस ने उन के भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था ॥
- २१ तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो । और दाऊद राजा आप अर्थों के पीछे पीछे चला । सो अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अब्नेर की कबर के पास फूट फूटकर रोया और

(१) मूल में दल से ।

सब लोग भी रोये । तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह ३३ बिलापगीत बनाया कि ॥

क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ की नाई मरे ॥

न तो तेरे हाथ बांधे गये न तेरे पांवों में बेड़ियां ३४ बाली गईं

जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए वैसे ही तू मारा गया ।

तब सब लोग उस के विषय फिर रो उठे । तब सब लोग ३५ कुछ दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आये पर दाऊद ने किरिया खाकर कहा यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहिले रोटी वा और कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझ से ऐसा ही बरन इस से भी अधिक करे । सब लोगों ३६ ने इस को जाना और इस से प्रसन्न हुए वैसे ही जो कुछ राजा करता था उस से सब लोग प्रसन्न होते थे । सो ३७ उन सब लोगों ने बरन सारे इस्त्राएल ने भी उसी दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का मार डाला जाना राजा की ओर से नहीं हुआ । और राजा ने अपने कर्म- ३८ चारियों से कहा क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस्त्राएल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है । और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूँ तो भी आज ३९ निर्बल हूँ और वे सरूयाह के पुत्र मुझ से अधिक प्रचण्ड हैं पर यहीवा बुराई करनेहारे को उस की बुराई के अनुसार ही पलटा दे ॥

४. जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर

हेब्रोन में मारा गया तब उस के हाथ ढीले पड़ गये और सब इस्त्राएली भी घबरा गये । शाऊल के पुत्र के तो दो जन थे जो दलों के प्रधान थे एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था ये १ दोनों बेरोतबासी बिन्यामीनी रिम्मोन के पुत्र थे क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है, और ३ बेरोती लोग गिच्छेम के भाग गये और आज के दिन लों वहीं परदेशी होकर रहते हैं ॥

शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था । ४ वह पांच बरस का हुआ कि यिञ्जेल से शाऊल और योनातान का समाचार आया तब उस की धाई उसे उठा कर भागी और उस के उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया और उस का नाम मपीबोशैत था ॥

उस बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और बाना जाकर ५ कड़े घाम के समय ईशबोशैत के घर में जब वह दोपहर का विश्राम कर रहा था घुस गये । सो वे गोईं ले जाने ६ के बचाने से घर के बीच घुस गये और उस के पेट में मारा

७ तब रेकाव और उस का भाई बाना भाग निकले । जब वे घर में घुसे और वह सेने की कोठरी में चारपाई पर सोता था तब उन्होंने उसे मार डाला और उस का सिर काट लिया और उस का सिर लेकर रातोंरात अराबा के मार्ग से चले । और वे ईशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे देख शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राण का गाहक था उस के पुत्र ईशबोशेत का यह सिर है सो आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उस के वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है । दाऊद ने बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाव और उस के भाई बाना को उत्तर देकर उन से कहा यहोवा जो मेरे प्राण का सारी विपत्तियों से छुड़ाता आया है उस के जीवन की सोह; जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूँ सिङ्गा में मुझ को शाऊल के मरने का समाचार दिया तब मैं ने उस को पकड़ कर घात कराया सो उस को समाचार का यही बदला मिला । फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में बरन उस की चारपाई ही पर घात किया तो मैं अब अवश्य ही उस के खून का पलटा तुम से लूंगा और तुम्हें धरती पर से नाश कर डालूंगा । सो दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उन को घात करके उन के हाथ पांव काट दिये और उन की लोथों को हेब्रोन के पोखरे के पास टांग दिया तब ईशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अन्नैर की कबर में गाड़ दिया ॥

(दाऊद के यरूशलेम में राज्य करने का आरम्भ)

**५. तब** इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे सुन हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस हैं । फिर अमले दिनों में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इस्राएल का अगुवा तू ही था और यहोवा ने तुझ से कहा कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा । सो सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आये और दाऊद राजा ने उन के साथ हेब्रोन में यहोवा के साम्हने वचा बांधी और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद का अभिषेक किया ॥

४ दाऊद तीस बरस का होकर राज्य करने लगा और चात्तीस बरस तक राज्य करता रहा । साठे सात बरस तक ता उस ने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और तैंतीस बरस तक यरूशलेम में सारे इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया । तब राजा ने अपने जनों को साथ लिये हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की जो उस देश के निवासी थे । उन्होंने ने यह समझ

कर कि दाऊद यहां पैठ न सकेगा उस से कहा जब लो तू अन्धों और लंगड़ों को दूर न करे तब लो यहां पैठने न पाएगा । तौभी दाऊद ने सिन्थोन नाम गढ़ को ले लिया वही दाऊदपुर भी कहावता है । उस दिन दाऊद ने कहा जो कोई यबूसियों को मारने चाहे सो चाहिये कि मोहड़ी से होकर चढ़े और अन्धे और लंगड़े जिन से दाऊद जी से बिन करता है उन्हें मारे । इस से यह कहावत चली कि अन्धे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे । और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उस का नाम दाऊदपुर रक्खा और दाऊद ने चारों ओर मिह्लो से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई । और दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उस के संग रहता था ॥

और सार के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत और देवदार की लकड़ी और बढ़ई और राज भेजे और उन्होंने ने दाऊद के लिये एक भवन बनाया । और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इस्राएली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है ॥

जब दाऊद हेब्रोन से आया उस के पीछे उस ने यरूशलेम की ओर और रखेलियां रख लीं और स्त्रियां कर लीं और उस के और बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं । उस के जो सन्तान यरूशलेम में उत्पन्न हुए उन के ये नाम हैं अर्थात् शम्भू शोबाब नातान सुलैमान, यिभार एलोशू नेपेग यापी एलीशामा एल्यादा और एलीपेलेत ॥

जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद का अभिषेक हुआ तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया । तब पलिश्ती आकर रपाईम नाम तराई में फैल गये । सो दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा यहोवा ने दाऊद से कहा चढ़ाई कर क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा । सो दाऊद बालपरासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा तब उस ने कहा यहोवा मेरे साम्हने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है इस कारण उस ने उस स्थान का नाम बालपरासीम रक्खा । वहां उन्होंने ने अपनी मूरतों को छोड़ दिया और दाऊद और उस के जन उन्हें उठा ले गये ॥

फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाईम नाम तराई में फैल गये । जब दाऊद ने यहोवा से पूछा

(१) अर्थात् टूट पड़ने का स्थान ।

तब उस ने कहा चढ़ाई न कर उन के पीछे से घूमकर  
 २४ तू वृक्षों के साम्हने से उन पर छापा मार । और जब  
 तू वृक्षों की कुनगियों में से सेना के चलने की सी  
 आहट तुझे सुन पड़े तब यह जानकर फुर्ती करना कि  
 यहोवा पलिशितियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी  
 २५ पधारा है । यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार करके दाऊद  
 गेबा से लेकर गेजेर लों पलिशितियों को मारता गया ॥

(पवित्र संदूक का यरूशलेम में पहुँचाया जाना)

**६. फिर** दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े बीरों को

१ जो तीस हजार थे इकट्ठा किया । तब दाऊद और जितने  
 लोग उस के संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम  
 स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आएँ जो  
 करुबों पर बिराजनेहारे सेनाओं के यहोवा का कदावता  
 ३ है । सो उन्होंने ने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर  
 चढ़ाकर टीले पर रहनेहारे अबीनादाब के घर से निकाला  
 और अबीनादाब के उज्जा और अहथो नाम दो पुत्र उस  
 ४ नई गाड़ी को हांकने लगे । सो उन्होंने ने उस को पर-  
 मेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहनेहारे अबीनादाब के  
 घर से बाहर निकाला और अहथो संदूक के आगे आगे  
 ५ चला । और दाऊद और इस्राएल का सारा घराना  
 यहोवा के आगे सनौबर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार  
 के बाजे और वीणा सारंगियां डफ डमरू भ्रांभ बजाते  
 ६ रहे । जब वे नाकोन के खलिहान तक आये तब उज्जा  
 ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे  
 ७ याम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई । तब यहोवा  
 का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उस के  
 दोष के कारण उस को वहां ऐसा मारा कि वह वहां  
 ८ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया । तब दाऊद  
 अप्रसन्न हुआ इसलिये कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा  
 था और उस ने उस स्थान का नाम पेरेमुज्जा<sup>२</sup> रक्खा  
 ९ यह नाम आज के दिन लों पड़ा है । और उस दिन दाऊद  
 यहोवा से डरकर कहने लगा यहोवा का संदूक मेरे यहां  
 १० क्योंकर आए । सो दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने  
 यहां दाऊदपुर में पहुँचाना न चाहा पर गतवासी ओबेदे-  
 ११ दोम के यहां पहुँचाया । और यहोवा का संदूक गती  
 ओबेदेदोम के घर में तीन महीने रहा और यहोवा ने  
 ओबेदेदोम और उस के सारे घराने को आशिष दी ।  
 १२ तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहीथा ने  
 ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उस का है उस पर

(१) मूल में जिस पर नाम करुबों पर बिराजनेहारे सेनाओं के यहोवा का नाम पुकारा गया । (२) अर्थात् उज्जा पर टूट पड़ना ।

भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशिष दी है सो  
 दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के  
 घर से दाऊदपुर में आनन्द के साथ पहुँचा दिया । जब १३  
 यहोवा के संदूक के उठानेहारे छः कदम चल चुके तब  
 दाऊद ने एक बैल और एक पोसा हुआ बछड़ा बलि  
 कराया । और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए १४  
 यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा । सो दाऊद १५  
 और इस्राएल का सारा घराना यहोवा के संदूक को जय  
 जयकार करते और नरसिंगा फुंकते हुए ले चला । जब १६  
 यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब शाऊल  
 की बेटी मीकल ने खिड़की में से भांकर दाऊद राजा  
 को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन  
 ही मन तुच्छ जाना । सो लोग यहोवा का संदूक भीतर १७  
 ले आये और उस के स्थान में अर्थात् उस तंष्ट में रक्खा  
 जो दाऊद ने उस के लिये खड़ा कराया था और दाऊद ने  
 यहोवा के सम्मुख होमबलि और मेलबलि चढ़ाये । जब १८  
 दाऊद होमबलि और मेलबलि चढ़ा चुका तब उस ने  
 सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया ।  
 तब उस ने सारी प्रजा को अर्थात् क्या स्त्री क्या पुरुष १९  
 सारी इस्राएली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और  
 एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक  
 टिकिया बंटवा दी । तब प्रजा के सब लोग अपने अपने  
 घर चले गये । तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद २०  
 देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद  
 से मिलने को निकलकर कहने लगी आज इस्राएल  
 का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की  
 लौडियों के साम्हने ऐसा उधाड़े हुए था जैसा कोई  
 निकम्मा अपना तन उधारे रहता है तब क्या ही प्रतापी  
 देख पड़ता था । दाऊद ने मीकल से कहा यहोवा जिस २१  
 ने तेरे पिता और उस के सारे घराने की सन्ती मुझ को  
 चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा  
 दिया है उस के सम्मुख मैं ऐसा खेला और मैं यहोवा के  
 सम्मुख खेला करूंगा भी । और इस से भी मैं अधिक २२  
 तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीच ठहरूंगा और जिन  
 लौडियों की तू ने चचा की वे भी मेरा आदरमान  
 करेंगी । और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन २३  
 लों उस के कोई सन्तान न हुआ ॥

(दाऊद का मन्दिर बनवाने की इच्छा करना और यहोवा का  
 दाऊद के वंश में सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देना )

**७. जब** राजा अपने भवन में रहता था  
 और यहोवा ने उस को उस के  
 चारों ओर के सब शत्रुओं से विभाम दिया था, तब २

राजा नातान नाम नबी से कहने लगा देख मैं तो देव-  
 १ शर के बने हुए घर में रहता हूँ परन्तु परमेश्वर का  
 २ सड़क तम्बू में रहता है। नातान ने राजा से कहा जो  
 कुछ तेरे मन में हो उसे कर क्योंकि यहोवा तेरे संग  
 ४ है। उसी दिन रात को यहोवा का यह वचन नातान के  
 ५ पास पहुँचा कि, जाकर मेरे दास दाऊद से कह यहोवा  
 ६ यों कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिये घर  
 ७ बनवाएगा। जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से  
 निकाल लाया आज के दिन लों मैं कभी घर में नहीं  
 ८ रहा तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ  
 मैं ने सारे इस्राएलियों के बीच आया जाया किया, क्या मैं  
 ने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से जिसे मैं ने अपनी  
 प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो ऐसी  
 ९ बात कभी कही कि तुम ने मेरे लिये देवदारु का घर क्यों  
 नहीं बनवाया। सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह  
 कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं ने तो तुम्हें  
 मेड़साला से और मेड़बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस  
 मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान  
 १० हो जाए। और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे  
 संग रहा और तेरे सारे शत्रुओं को तेरे साम्हने से नाश  
 किया है। फिर मैं तेरे नाम की पृथिवी पर के बड़े बड़े  
 ११ लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। और मैं अपनी  
 प्रजा इस्राएल के लिये एक स्थान ठहराऊंगा और उस  
 को स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी  
 रहेगी और कभी चलायमान न होगी और कुटिल लोग  
 उसे फिर दुःख न देने पाएंगे जैसे कि पहिले दिनों में,  
 १२ बरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के  
 ऊपर न्यायी ठहराता था और मैं तुम्हें तेरे सारे शत्रुओं से  
 विश्राम दूंगा। और यहोवा तुम्हें यह भी बताता है कि  
 १३ यहोवा तेरा घर बनाये रखेगा<sup>१</sup>। जब तेरी आयु पूरी  
 हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सी जाएगा  
 तब मैं तेरे निज वंश को<sup>२</sup> तेरे पीछे खड़ा करके उस के  
 १४ राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा  
 और मैं उस की राजगद्दी को सदा लों स्थिर रखूंगा। मैं  
 उस का पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा यदि  
 वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दण्ड से और  
 १५ आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। पर मेरी करुणा  
 उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैं ने शाऊल पर से हटा  
 १६ कर उस को तेरे आगे से दूर किया। बरन तेरा घराना और  
 तेरा राज्य तेरे साम्हने सदा अटल बना रहेगा तेरी गद्दी

(१) मूल में तेरे लिये घर बनाएगा। (२) मूल में तेरे वंश को जो  
 तेरी अन्तरियों से निकलेगा।

सदा लों बनी रहेगी। इन सब बातों और इस सारे दर्शन १७  
 के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया ॥

तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख १८  
 बैठा और कहने लगा हे प्रभु यहोवा मैं तो क्या कहूँ  
 और मेरा घराना क्या है कि तू ने मुझे यहाँ लों पहुँचा  
 दिया है। पर तौमी हे प्रभु यहोवा यह तेरी दृष्टि में १९  
 छोटों सी बात हुई क्योंकि तू ने अपने दास के घराने के  
 विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे  
 प्रभु यहोवा यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुम्हें २०  
 से और क्या कह सकता है हे प्रभु यहोवा तू तो अपने  
 दास को जानता है। तू ने अपने वचन के निमित्त २१  
 और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम  
 किया है कि तेरा दास उस को जान ले। इस कारण हे २२  
 यहोवा परमेश्वर तू महान् है क्योंकि जो कुछ हम ने  
 अपने कानों से सुना है उस के अनुसार तेरे तुल्य कोई  
 नहीं और न तुम्हें छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर २३  
 तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है वह तो पृथिवी  
 भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी  
 निज प्रजा करने को लुड़ाया इसलिये कि वह अपना नाम  
 करे और तुम्हारे लिये बड़े बड़े काम करे और तू अपनी  
 प्रजा के साम्हने जिसे तू ने मिस्री आदि जाति जाति के  
 लोगों और उन के देवताओं से लुड़ा लिया अपने देश के  
 लिये भयानक काम करे। और तू ने अपनी प्रजा इस्राएल २४  
 को अपनी सदा की प्रजा होने के लिये ठहराया और हे  
 यहोवा तू आप उस का परमेश्वर ठहर गया। सो अब हे २५  
 यहोवा परमेश्वर तू ने जो वचन अपने दास के और उस  
 के घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिये स्थिर कर  
 और अपने कहे के अनुसार ही कर। और लोग यह कर २६  
 तेरे नाम की महिमा सदा किया करें कि सेनाओं का  
 यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है। और तेरे दास  
 दाऊद का घराना तेरे साम्हने अटल रहे। क्योंकि हे २७  
 सेनाओं के यहोवा हे इस्राएल के परमेश्वर तू ने यह कह  
 कर अपने दास पर प्रगट किया है कि मैं तेरा घर बनाये  
 रखूंगा<sup>३</sup> इस कारण तेरे दास को तुम्हें से यह प्रार्थना  
 करने का हियाव हुआ है। और अब हे प्रभु यहोवा तू २८  
 ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य ठहरते हैं और तू ने  
 अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। सो २९  
 अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशिष  
 दे कि वह तेरे सम्मुख सदा लों बना रहे क्योंकि हे प्रभु  
 यहोवा तू ने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना  
 तुम्हें से आशिष पाकर सदा लों भन्य रहे ॥

(३) मूल में तेरे लिये घर बनाऊंगा।

(दाऊद के विजयों का संक्षेप वर्णन)

८. इस के पीछे दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता १
- २ उन के हाथ से छीन ली। फिर उस ने मोआबियों को भी जीत उन को भूमि पर लिटा कर डोरी से मापा तब दो डोरी के लोग मापकर घात किये और डोरी भर के लोग जीते छोड़ दिये। तब मोआबी दाऊद के अधीन ३ होकर भेंट ले आने लगे। फिर जब सोबा का राजा रहोव का पुत्र हददेजेर महानद के पास अरना राज्य २ फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था तब दाऊद ने उस को ४ जीत लिया। और दाऊद ने उस से एक हजार सात सौ सवार और भीस हजार प्यादे छीन लिये और सब रखवाले धोड़े के सुम की नस कटवाई पर एक सौ रखवाले धोड़े ५ बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हददेजेर की सहायता करने को आये तब दाऊद ने अरामियों में से बाईस हजार पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में के सिपाहियों की चौकियां बैठाई सो अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उस को ७ जिताता था। और हददेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो टालें थीं उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को ८ आया। और बेतह और बेरैतै नाम हददेजेर के नगरों ९ से दाऊद राजा बहुत ही पीतल ले आया। और जब हमत के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हददेजेर की १० सारी सेना को जीत लिया, तब तोई ने योराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उस का कुराल चोम पूछने आर उसे इसलिये बधाई देने को भेजा कि उस ने हददेजेर में लड़ करके उस को जीत लिया था क्योंकि हददेजेर तोई से लड़ा करता था। और योराम ११ चांदी सोने और पीतल के पात्र लिये हुए आया। इन को दाऊद राजा ने यहांवा के लिये पवित्र करके रखा और वैसा ही अपनी जीती हुई सब जातियों के सोने १२ चांदी से भी किया, अर्थात् अरामियों मोआबियों अम्मोनियों पलिश्तियों और अमालेकियों के सोने चांदी को और रहोव के पुत्र सोबा के राजा हददेजेर की लूट को १३ रखा। और जब दाऊद लोनवाली तराई में अठारह हजार अरामियों को मारके लौट आया तब उस का बका नाम १४ हो गया। फिर उस ने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई सारे एदोम में उस ने सिपाहियों की चौकियां

(१) मूल में पलिश्तियों की माता का बाग।

(२) मूल में हाथ।

बैठाईं से सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गये। और दाऊद जहां जहां जाता वहां वहां यहोवा उस को जिताता था ॥

(दाऊद के कर्मचारियों की नामावली)

- दाऊद तो सारे इस्त्रायल पर राज्य करता था और १५ दाऊद अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। और प्रधान सेनापति सरुयाह का पुत्र १६ योआब था इतिहास का लिखनेहारा अहीलूद का पुत्र यशशापात था, प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक १७ और एग्यातार का पुत्र अहीमेलोक थे, मंत्री सरायाह था १८ करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र यनायाह था और दाऊद के पुत्र भी भंत्रा २ थे ॥

(मपीबोशेत का ऊंचा पद प्राप्त करना)

६. दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब लो बचा है जिस

- को मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। शाऊल के १ घराने का तो सोबा नाम एक कर्मचारी था वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उस से पूछा क्या तू सीबा है तब उस ने कहा हां तेरा दास वही है। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई ३ अब लो बचा है जिस को मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं सीबा ने राजा से कहा हां योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उस से पूछा वह ४ कहा है सीबा ने राजा से कहा वह तो लोदबार नगर में अम्मिएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। सो राजा ५ दाऊद ने दूत भेजकर उस को लोदबार से अम्मिएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत जो ६ योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया तब मुंह के बल गिरके दण्डवत् की। दाऊद ने कहा हे मपीबोशेत उस ने कहा तेरे दास को क्या आज्ञा। दाऊद ने उस से कहा मत डर तेरे पिता ७ योनातान के कारण मैं निश्चय तुझ को प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उस ने ८ दण्डवत् करके कहा तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। तब राजा ने शाऊल के ९ कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उस से कहा जो कुछ शाऊल और उस के सारे घराने का था सो मैं ने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। सो तू अपने बेटों और १० सेवकों समेत उस की भूमि पर खेती करके उस को उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला

(१) वा याजक।

करे पर तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर  
 ११ नित्य भोजन किया करेगा । सीबा के तो पन्द्रह पुत्र  
 और बीस सेवक थे । सीबा ने राजा से कहा मेरा प्रभु  
 राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सभी के  
 अनुसार तेरा दास करेगा । दाऊद ने कहा मपीबोशेत  
 राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन किया करे ।  
 १२ मपीबोशेत के भी मीका नाम एक छोटा बेटा था और  
 सीबा के घर में जितने रहते थे सो सब मपीबोशेत की  
 १३ सेवा करते थे । और मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था  
 क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता  
 था और वह दोनों पांवों का पंगुला था ॥

(अम्मोनियों के साथ युद्ध होने और दाऊद  
 के पाप में फंसने का बर्णन)

१०. इस के पीछे अम्मोनियों का राजा मर  
 गया और उस का हानून नाम

१ पुत्र उस के स्थान पर राजा हुआ । तब दाऊद ने यह  
 सोचा कि जैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझ को प्रीति  
 दिखाई थी वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा  
 सो दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उस के पास  
 उस के पिता के विषय शांति देने के लिये भेज दिया ।  
 और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आये ।  
 ३ पर अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने  
 लगे दाऊद ने जो तेरे पास शांति देनेहारे भेजे हैं सो  
 क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा  
 से भेजे हैं क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे  
 पास इसी मनसा से नहीं भेजा कि इस नगर में दूँदड़ा  
 ४ करके और इस का भेद लेकर इस को उलट दें । सो  
 हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उन की  
 आधी आधी डाढ़ी मुड़वाकर और आधे वज्र अर्थात्  
 ५ नितम्ब लों कटवा कर उन को जने दिया । इस का  
 समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उन से मिलने के लिये  
 भेजा क्योंकि वे बहुत लजाते थे और राजा ने यह कहा  
 कि जब लों तुम्हारी डाढ़ियां बड़ न जाएं तब लों यरीहो  
 ६ में ठहरे रही तब लौट आना । जब अम्मोनियों ने देखा  
 कि हम दाऊद का धिनीने लगे हैं तब अम्मोनियों ने  
 बेअहोब और सोबा के बीस हजार अरामी प्यादों को  
 और हजार पुरुषों समेत माका के राजा को और बारह  
 ७ हजार लोधी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया । यह सुनकर  
 दाऊद ने योआब और शूरवीरों की सारी सेना को  
 ८ भेजा । तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास  
 पाँति बाँधी और सोबा और रहोब के अरामी और तोब  
 ९ और माका के पुरुष उन से न्यारे मैदान में थे । यह

देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पाँति  
 बन्धी है योआब ने सब बड़े बड़े इस्त्राएली वीरों में से  
 कितनों को छाँटकर अरामियों के साम्हने उन की पाँति  
 बन्धाई, और और लोगों को अपने भाई अबीशै के १०  
 हाथ सौंप दिया और उस ने अम्मोनियों के साम्हने  
 उन की पाँति बन्धाई । फिर उस ने कहा यदि अरामी ११  
 मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना  
 और यदि अम्मोनी मुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं  
 आकर तेरी सहायता करूँगा । तू हियाब बांध और हम १२  
 अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त  
 पुरुषार्थ करें और यहोवा जैसा उस को अच्छा लगे  
 वैसा करे । तब योआब और जो लोग उस के साथ थे १३  
 अरामियों से युद्ध करने को निकट गये और वे उस के  
 साम्हने से भागे । यह देख कर कि अरामी भाग गये हैं १४  
 अम्मोनी भी अबीशै के साम्हने से भागकर नगर के  
 भीतर घुसे । तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर  
 यरूशलेम को आया । फिर यह देखकर कि हम इस्त्रा- १५  
 एलियों से हार गये अरामी इकट्ठे हुए । और हददेजेर १६  
 ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया  
 और वे हददेजेर के सेनापति शोबक को अपना प्रधान  
 बनाकर हेलाम को आये । इस का समाचार पाकर १७  
 दाऊद ने सारे इस्त्राएलियों को इकट्ठा किया और यर्दन  
 के पार होकर हेलाम में पहुँचा तब आराम दाऊद के  
 विरुद्ध पाँति बांधकर उस से लड़ा । पर अरामी इस्त्रा- १८  
 एलियों से भागे और दाऊद ने अरामियों में से सात सौ  
 रथियों और चालीस हजार सवारों को मार डाला और  
 उन के सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वह वहीं  
 मर गया । यह देखकर कि हम इस्त्राएल से हार गये हैं १९  
 जितने राजा हददेजेर के अधीन थे उन सभी ने इस्त्राएल  
 के साथ संधि की और उस के अधीन हो गये । और  
 अरामी अम्मोनियों की और सहायता करने से डर गये ॥

११. फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने  
 के निकला करते हैं इस समय  
 अर्थात् बरस के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उस  
 के संग अपने सेवकों और सारे इस्त्राएलियों को भेजा और  
 उन्होंने ने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर  
 को घेर लिया । पर दाऊद यरूशलेम में रह गया ॥

सोभ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राज- २  
 भवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उस को  
 एक स्त्री जो अति सुन्दर थी नहाती हुई देख पड़ी । जब ३  
 दाऊद ने भेज कर उस स्त्री को पुत्रवाया तब किमी ने  
 कहा क्या यह एलीशाम की बेटी और हिस्ती ऊरिथ्याह

- ४ की स्त्री बतशेबा नहीं है ! तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और उस ने उस से प्रसंग किया वह तो श्रुतु से शुद्ध हो गई थी तब वह अपने घर लौट गई । सो वह स्त्री गर्भवती हुई तब दाऊद के पास कहला मेजा कि मुझे गर्भ है । सो दाऊद ने योआब के पास कहला मेजा कि हिस्ती ऊरिव्याह को मेरे पास भेज तब योआब ने ऊरिव्याह को दाऊद के पास भेज दिया । जब ऊरिव्याह उस के पास आया तब दाऊद ने उस से योआब और सेना का कुशल ज्ञेय और युद्ध का हाल पूछा । तब दाऊद ने ऊरिव्याह से कहा अपने घर जाकर अपने पांव धो सो ऊरिव्याह राजभवन से निकला और उस के पीछे राजा के पास से कुछ इनाम मेजा गया । पर ऊरिव्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया । जब दाऊद को यह समाचार मिला कि ऊरिव्याह अपने घर नहीं गया तब दाऊद ने ऊरिव्याह से कहा क्या तू यात्रा करके नहीं आया सो अपने घर क्यों नहीं गया । ऊरिव्याह ने दाऊद से कहा जब संदूक और इस्राएल और यहूदा भौपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे किये हुए हैं तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी स्त्री के साथ सोऊं तेरे जीवन की सोह और तेरे प्राण की सोह कि मैं ऐसा काम नहीं करने का । दाऊद ने ऊरिव्याह से कहा आज यहीं रह और कल में तुझे बिदा करूंगा सो ऊरिव्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा । तब दाऊद ने उसे नेवता दिया और उस ने उस के साम्हने खाया पिया और उस ने उसे मतवाला किया और सांभू को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला पर अपने घर न गया । बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिख कर ऊरिव्याह के हाथ से भेज दी । उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सब से घोर युद्ध के साम्हने ऊरिव्याह को ठहराओ तब उसे छोड़ कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए । और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देख भाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि बीर है उसी में ऊरिव्याह को ठहरा दिया । तब नगर के पुरुषों ने निकल कर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात् दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आये और उन में हिस्ती ऊरिव्याह भी मर गया । तब योआब ने भेजकर दाऊद को युद्ध का सारा हाल बताया, और दूत को आज्ञा दी कि जब तू युद्ध का सारा हाल राजा को बता चुके,

तब यदि राजा जलकर कहने लगे तुम लोग लड़ने के नगर के ऐसे निकट क्यों गये क्या तुम न जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर छोड़ेंगे । यरूबेरोह के पुत्र अबीमेलेक को किस ने मार डाला ? क्या एक स्त्री ने शहरपनाह पर चक्की का उपरला पाट उस पर ऐसा म डाला कि वह तेबेस में मर गया फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गये तो तू यों कहना कि तेरा दास ऊरिव्याह हिस्ती भी मर गया । सो दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सारी बातें बर्णन कीं । दूत ने दाऊद से कहा कि वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आये फिर हम ने उन्हें फाटक लों खदेड़ा । तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गये और तेरा दास ऊरिव्याह हिस्ती भी मर गया । दाऊद ने दूत से कहा योआब से यों कहना कि इस बात के कारण उदास न हो क्योंकि तलवार जैसे इस को वैसे उस को नाश करती है सो तू नगर के विरुद्ध अधिक हड़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हियाव बंधाना । जब ऊरिव्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया तब वह अपने पति के लिये रोने पीटने लगी । और जब उस के विलाप के दिन बीत चुके तब दाऊद ने भेजकर उस को अपने घर में बुलवा रख लिया सो वह उस की स्त्री हो गई और बेटा जनी । पर यह काम जो दाऊद ने किया सो यहोवा को बुरा लगा ॥

## १२. सो यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उस के पास जाकर कहने लगा एक नगर में दो मनुष्य रहते थे जिन में से एक धनी और एक निर्धन था । धनी के पास तो बहुत सी भेड़बकरियां और गाय बैल थे । पर निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ कुछ भी न था और उस को उस ने भाल लेकर जिलाया था और वह उस के यहां उस के बालबच्चों के साथ ही बड़ी थी वह उस के टुकड़े में से खाती और उस के कटोरे में से पीती और उस की गोद में सोती थी और वह उस की बेटा सी बनी थी । और धनी के पास एक बटोही आया और उस ने उस बटोही के लिये जो उस के पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़बकरियों वा गाय बैलों में से कुछ न लिया पर उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिये जो उस के पास आया था भोजन बनवाया । तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उस ने न तान से कहा यहोवा के जीवन की सोह जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया सो प्राणदण्ड के योग्य

२  
३  
४  
५



६ है । और उस को वह मेड़ की बच्ची का चौगुणा मर देना होगा इसलिये उस ने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की ॥

७ तब नातान ने दाऊद से कहा तू ही वह मनुष्य है । इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैं ने तेरा अभियेक कराके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैं ने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया । फिर मैं ने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की स्त्रियां तेरे भांग के लिये दीं और मैं ने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था और यदि यह थोड़ा ९ था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देनेवाला था । तू ने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उस के लेखे बुरा है हिच्ची ऊरिय्याह को तू ने तलवार से घात किया और उस की स्त्री को अपनी कर लिया है और ऊरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मार डाला १० है । सो अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी क्योंकि तू ने मुझे तुच्छ जानकर हिच्ची ऊरिय्याह की स्त्री को अपनी स्त्री कर लिया है । यहोवा यों कहता है कि सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी स्त्रियों को तेरे साम्हने लेकर दूसरे को दूंगा और वह दिन दुपहरी तेरी स्त्रियों से कुकर्म करेगा । १२ तू ने तो वह काम छिपाकर किया पर मैं यह काम सारे १३ इस्राएलियों के साम्हने दिनदुपहरी कराऊंगा । तब दाऊद ने नातान से कहा मैं ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है । नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया १४ है तू न मरेगा । तौभी तू ने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का वा बड़ा अवसर दिया है इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है सो १५ अवश्य ही मरेगा । तब नातान अपने घर चला गया ॥

और जो बच्चा ऊरिय्याह की स्त्री दाऊद का जन्माया जनी थी वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो १६ गया । सो दाऊद उस लड़के के लिये परमेश्वर से बिनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात १७ भर भूमि पर पड़ा रहा । तब उस के घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिये उस के पास गये पर उठ ने नाह की और उन के संग रोटी न खाई । १८ सातवें दिन बच्चा मर गया और दाऊद के कर्मचारी उस को बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे उन्होंने ने तो कहा था कि जब लों बच्चा जीता रहा तब लों उस ने हमारे समझाने पर मन न लगाया यदि हम उस को बच्चे के मर जाने का हाल मुनाएँ तो वह बहुत ही १९ अधिक दुःखी होगा । अपने कर्मचारियों को आपस में

फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया सो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा क्या बच्चा मर गया ? उन्होंने ने कहा हां मर गया है । तब दाऊद ने २० भूमि पर से उठ नहा तेल लगा बख बदल यहोवा के भवन जाकर दरइवत् की फिर अपने भवन में आया और उस के आज्ञा देने पर रोटी उस को परोसी गई और उस ने भोजन किया । तब उस के कर्मचारियों ने उस से पूछा २१ तू ने यह क्या काम किया है जब लों बच्चा जीता रहा तब लों तू उपवास करता हुआ रोता रहा पर ज्योंही बच्चा मर गया त्योंही तू उठकर भोजन करने लगा । उस ने उत्तर २२ दिया कि जब लों बच्चा जीता रहा तब लों तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जानिये यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीता रहे । पर अब वह मर गया फिर मैं उपवास क्यों करूँ क्या २३ मैं उसे लौटा ला सकता हूँ मैं तो उस के पास जाऊंगा पर वह मेरे पास लौट न आएगा । तब दाऊद ने अपनी २४ स्त्री बत्शेबा को शांति दी और उस के पास जाकर उस से प्रसंग किया और वह बेटा जनी और उस ने उस का नाम सुलैमान रक्खा और यहोवा ने उस से प्रेम रक्खा । और उस ने नातान नबी के द्वारा मेज दिया और उस २५ ने यहोवा के कारण उस का नाम यदीद्याह<sup>१</sup> रक्खा ॥

और योआव ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर २६ राजनगर को ले लिया । तब योआव ने दूतों से दाऊद के पास यह कहला मेजा कि मैं रब्बा से लड़ा और जतवाले २७ नगर को ले लिया है । सो अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भां ले ले ऐसा न हो कि मैं उसे ले लूं और वह मेरे नाम पर कहलाए<sup>२</sup> । सो दाऊद सब लोगों को इकट्ठा करके रब्बा को गया और २९ उस से युद्ध करके उसे ले लिया । तब उस ने उन के ३० राजा<sup>३</sup> का सुकुट जो तौल में किक्कार भर सोने का था और उस में मणि जड़े थे उस को उस के सिर पर से उतारा और वह दाऊद के सिर पर रक्खा गया । फिर उस ने उस ३१ नगर की बहुत ही लूट पाई । और उस ने उस के रहनेहारों को निकालकर आग से दो दो टुकड़े कराया और लोहे के हेंगे उन पर फिरवाये और लोहे की कुल्हाड़ियों से उन्हें कटवाया और ईंट के पजावे पर से चलवाया<sup>४</sup> और अम्मोनियों के सब नगरों से भी उस ने वैसा ही किया । तब दाऊद सारे लोगों समेत यरुशलेम का लौट आया ॥

(१) अर्थात् यहोवा का प्रिय ।

(२) मूल में मेरा नाम उस पर पुकारा जावे । (३) वा मत्काम ।

(४) वा आरों लोहे के हेंगों और लोहे की कुल्हाड़ियों के काम पर लगाया और उन से ईंट के पजावे में परिश्रम कराया ।

(अम्नोन का कुकर्म करना और मार डाला जाना)

१३. इस के पीछे तामार नाम एक सुन्दरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की

- बहिन थी उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ ।  
 १ और अम्नोन अपनी बहिन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया क्योंकि वह कुंवारी थी और उस के साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था । अम्नोन के योनादाब नाम एक मित्र था जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था ।  
 ४ सो उस ने अम्नोन से कहा हे राजकुमार क्या कारण है कि तू दिन दिन ऐसा दुबला होता जाता है क्या तू मुझे न बताएगा अम्नोन ने उस से कहा मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहिन तामार पर मोहित हूँ ।  
 ५ योनादाब ने उस से कहा अपने पलंग पर लेट कर बीमार बन और जब तेरा पिता तुझे देखने को आए तब उस से कहना मेरी बहिन तामार आकर मुझे रांटी खिलाए और भोजन को मेरे साम्हने बनाए कि मैं उस को देखकर उस के हाथ से खाऊँ । सो अम्नोन लेटकर बीमार बना और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा मेरी बहिन तामार आकर मेरे देखते दो पूरी बनाए कि मैं उस के हाथ से खाऊँ । सो दाऊद ने अपने धर तामार के पास यह कहला भेजा कि अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उस के लिये भोजन बना । तब तामार अपने भाई अम्नोन के घर गई और वह पड़ा हुआ था सो उस ने आटा लेकर गंधा और उस के देखते पूरियाँ बनाकर पकाईं । तब उस ने थाल लेकर उन को उसे परीसा पर उस ने खाने से नाह की तब अम्नोन ने कहा मरे आस पास से सब लोगों को निकाल दो तब सब लोग उस के पास से निकल गये । तब अम्नोन ने तामार से कहा भोजन को केठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊँ सो तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास केठरी में ले गई । जब वह उन को उस के खाने के लिये निकट ले गई तब उस ने उसे पकड़कर कहा हे मेरी बहिन आ मुझ से मिल ।  
 १२ उस ने कहा हे मेरे भाई ऐसा नहीं मुझे भ्रष्ट न कर क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिये ऐसी मूढता का काम न कर । और फिर मैं अपनी नामधराई लिये हुए कहां जाऊंगी और तू इस्राएलियों में एक मूढ गिना जाएगा सो राजा से बातचीत कर वह मुझ को तुझे ब्याह देने से नाह न करेगा । पर उस ने उस की न सुनी पर उस से बलवान होने के कारण उस के साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया । तब अम्नोन उस से

अत्यन्त वैर रखने लगा यहाँ लो कि यह वैर उस के पहिले मोह से बढ़कर हुआ सो अम्नोन ने उस से कहा उठकर चली जा । उस ने कहा ऐसा नहीं क्योंकि यह बड़ा उपद्रव १६ अर्थात् मुझे निकाल देना उस पहिले से बढ़ कर है जो तू ने मुझ से किया है । पर उस ने उस की न सुनी । तब १७ उस ने अपने टहलुए जवान को बुलाकर कहा इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उस के पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा । वह तो रंगबिरंगी कुर्ती पहिने १८ थी क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थीं सो ऐसी ही वस्त्र पहिनती थीं सो अम्नोन के टहलुए ने उसे बाहर निकालकर उस के पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी । तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी १९ रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रक्खे चिल्लाती हुई चली गई । उस के भाई अबशालोम ने उस २० से पूछा क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है पर अब हे मेरी बहिन चुप रह वह तो तेरा भाई है इस बात की चिन्ता न कर । तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही । जब ये सारी बातें दाऊद राजा २१ के कान पड़ीं तब वह बहुत जल उठा । और अबशालोम २२ ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा क्योंकि अम्नोन ने उस की बहिन तामार को भ्रष्ट किया था इस कारण अबशालोम उस से वैर रखता था ॥

दो बरस के बीतने पर अबशालोम ने एग्रैम निकट २३ के बाल्हासोर में अपनी भेड़ों की ऊन कतराया और अबशालोम ने सब राजकुमारों को नेवता दिया । वह राजा के २४ पास जाकर कहने लगा बिनती यह है कि तेरे दास की भेड़ों की ऊन कतरी जाती है सो राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले । राजा ने अबशालोम से २५ कहा हे मेरे बेटे ऐसा नहीं हम सब न चलेंगे न हो कि तुझे अधिक कष्ट हो । तब अबशालोम ने उसे बिनती करके दबाया पर उस ने जाने को नकारा तभी उसे आशीर्वाद दिया । तब अबशालोम ने कहा यदि तू नहीं २६ तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे संग जाने दे । राजा ने उस से पूछा वह तेरे संग क्यों चले । पर अबशालोम ने २७ उसे ऐसा दबाया कि उस ने अम्नोन और सब राजकुमारों को उस के साथ जाने दिया । और अबशालोम ने अपने २८ सेबकों को आज्ञा दी कि सावधान रहे और जब अम्नोन दाखमधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुम से कहूँ अम्नोन को मारो तब निडर होकर उस को मार डालना क्या इस आज्ञा का देनेहारा मैं नहीं हूँ । हियाव बांध कर पुरुषार्थ करना । सो अबशालोम के सेबकों ने अम्नोन २९ से अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया । तब सब

राजकुमार उठ अपने अपने खंजर पर चढ़कर भाग गये ।  
 ३० वे मार्ग ही में थे कि दाऊद को यह हूहा सुन पड़ा कि  
 अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उन  
 ३१ में से एक भी नहीं बचा । सो दाऊद ने उठकर अपने  
 बख फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा और उस के सब  
 ३२ कर्मचारी बख फाड़े हुए उस के पास खड़े रहे । तब  
 दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा मेरा  
 प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात् राजकुमार  
 मार डाले गये हैं केवल अम्मोन मारा गया है क्योंकि  
 जिस दिन उस ने अबशालोम की बहिन तामार को भ्रष्ट  
 किया उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही  
 ३३ बात उनी थी । सो अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में  
 यह समझ कर कि सब राजकुमार मर गये उदास न  
 ३४ हो क्योंकि केवल अम्मोन ही मर गया है । इतने में  
 अबशालोम भाग गया । और जो जवान पहरा देता था  
 उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के  
 ३५ पास के मार्ग से बहुत लोग चले आते हैं । तब योनादाब  
 ने राजा से कहा देख राजकुमार तो आ गये हैं जैसा तेरे  
 ३६ दास ने कहा था वैसा ही हुआ । वह कह ही चुका था कि  
 राजकुमार पहुँच गये और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे और  
 राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिलक बिलक  
 ३७ रोने लगा । अबशालोम तो भाग कर गश्ूर के राजा  
 अम्मीहूर के पुत्र तल्मै के पास गया । और दाऊद अपने  
 पुत्र के लिये दिन दिन विलाप करता रहा ॥

(अबशालोम की राजद्रोह की गोष्ठा)

३८ जब अबशालोम भागकर गश्ूर को गया तब वहाँ  
 ३९ तीन बरस रहा । और दाऊद के मन में अबशालोम के  
 पास जाने की बड़ी लालसा रही क्योंकि अम्मोन जो मर  
 गया था इस से उस ने उस के विषय शांति पाई ॥

**१४. और** सरुयाह का पुत्र योआब ताड़

गया कि राजा का मन अब  
 १ शालोम की ओर लगा है । सो योआब ने तको नगर  
 में दूत भेजकर वहाँ से एक बुद्धिमान स्त्री बुलवाई और  
 उस से कहा शोक करनेवाली बन अर्थात् शोक का  
 पहिरावा पहिन और तेल न लगा पर ऐसी स्त्री बन जो  
 ३ बहुत दिन से मुए के लिये विलाप करती रही हो । तब  
 राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना । और  
 योआब ने उस को जो कुछ कहना था सो लिखा  
 ४ दिया । जब वह तकोहन राजा से बातें करने लगी तब  
 मुँह के बल भूमि पर गिर दण्डवत् करके कहने लगी  
 ५ राजा की दोहाई । राजा ने उस से पूछा तुम्हें क्या  
 चाहिये उस ने कहा सचमुच मेरा पति मर गया और

मैं विधवा हो गई । और तेरी दासी के दो बेटे थे और १  
 उन दोनों ने मैदान में मारपीट की और उन का  
 छुटानेहारा कोई न था, सो एक ने दूसरे को ऐसा मारा ७  
 कि वह मर गया । और सुन सारे कुल के लोग तेरी ७  
 दासी के विरुद्ध उठकर यह कहते हैं कि जिस ने अपने  
 भाई को घात किया उस को हमें सौंप दे कि उस के  
 मारे हुए भाई के प्राण के पलटे में उस का प्राणदण्ड ८  
 दे और बारिस को भी नाश करें सो वे मेरे अंगारे को  
 जो बच गया है बुझाएंगे और मेरे पति का नाम और  
 सन्तान धरती पर से मिट एंगे । राजा ने स्त्री से कहा ८  
 अपने घर जा और मैं तेरे विषय आज्ञा दूंगा । तकोहन ९  
 ने राजा से कहा हे मेरे प्रभु हे राजा दोष मुझी का  
 और मेरे पिता के घराने ही को लगे और राजा अपनी  
 गद्दी समेत निर्दोष ठहरे । राजा ने कहा जो कोई १०  
 तुम्ह से कुछ बोले उस को मेरे पास ला तब वह फिर  
 तुम्हें छूने न पाएगा । उस ने कहा राजा अपने ११  
 परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पलटा  
 लेनेहारा और नाश करने न पाए और मेरे बेटे कानाश  
 न होने पाए । उस ने कहा यहोवा के जीवन की सांढ  
 तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा ।  
 स्त्री बोली तेरी दासी अम्ने प्रभु राजा से एक बात कहने १२  
 पाए । उस ने कहा कहे जा । स्त्री कहने लगी फिर तू १३  
 ने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिये ऐसी ही युक्ति  
 क्यों की है राजा ने जो यह वचन कहा है इस से वह  
 दोषी सा ठहरता है क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को १४  
 लौटा नहीं लाता । हम को तो मरना ही है और भूमि १४  
 पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे जो फिर उभया  
 नहीं जाता तौभी परमेश्वर प्राण नहीं लेता बरन ऐसी  
 युक्ति करता है कि निकाला हुआ उस के पास से निकाला १५  
 हुआ न रहे । और अब मैं जो अपने प्रभु राजा से यह १५  
 बात कहने को आई हूँ इस का कारण यह है कि लोगों  
 ने मुझे डरा दिया था सो तेरी दासी ने सोचा कि मैं  
 राजा से बोलूंगी क्या जानिये राजा अपनी दासी की १६  
 बिनती को पूरी करे । निःसंदेह राजा सुनकर अपनी १६  
 दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा जो मुझे और  
 मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग में से नाश १७  
 करना चाहता है । सो तेरी दासी ने सोचा कि मेरे प्रभु १७  
 राजा के वचन से शांति मिले क्योंकि मेरा प्रभु राजा  
 परमेश्वर के किसी दूत की नाई भले बुरे का विवेक  
 कर सकता है सो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे ।  
 राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा जो बात मैं तुम्ह १८  
 से पूछता हूँ सो मुझ से न छिपा । स्त्री ने कहा मेरा १८

- १६ प्रभु राजा कहे जाए । राजा ने पूछा इस बात में क्या योआब तेरा संगी है । स्त्री ने उत्तर देकर कहा हे मेरे प्रभु हे राजा तेरे प्राण की सोह कि जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है उस से कोई न दहिनी ओर मुड़ सकता है न बाईं तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दी और ये
- २० सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाईं । तेरे दास योआब ने यह काम इस लिये किया कि बात का रंग बदले और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है यहां तक कि धरती पर जो कुछ होता है
- २१ उस सब को वह जानता है । तब राजा ने योआब से कहा सुन मैं ने यह बात मानी है सो जाकर अबशालोम
- २२ जवान को लौटा ला । तब योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिर दण्डवत् कर राजा को आशीर्वाद दिया और योआब कहने लगा हे मेरे प्रभु हे राजा आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है क्योंकि
- २३ राजा ने अपने दास की बिनती सुनी है । सो योआब उठकर गश्शर की गया और अबशालोम को यरूशलेम
- २४ ले आया । तब राजा ने कहा वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन न पाए । सो अबशालोम अपने घर जा रहा और राजा का दर्शन न पाया ॥
- २५ सारे इस्राएल में सुन्दरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई न था वरन उस में
- २६ नख से सिल लों कुछ दोष न था । और वह बरसएं दिन अपना सिर मुंडाता था उस के बाल जो उस को भारी जान पड़ते थे इस कारण वह उसे मुंडाता था सो जब जब वह उसे मुंडाता तब तब अपने सिर के बाल तौलकर राजा के तौल के अनुसार दो सौ शेकेल भर पाता
- २७ था । और अबशालोम के तीन बेटे और तामार नाम एक बेटा उत्पन्न हुई थी और यह रूपवती स्त्री थी ॥
- २८ सो अबशालोम राजा का दर्शन बिना पाये यरू-
- २९ शलेम में दो बरस रहा । तब अबशालोम ने योआब को बुलवा भेजा कि उसे राजा के पास भेजे पर योआब ने उस के पास आने से नाह की और उस ने उसे दूसरी बार
- ३० बुलवा भेजा पर तब भी उस ने आने से नाह की । तब उस ने अपने सेवकों से कहा सुनो योआब का एक खेत मेरी भूमि के निकट है और उस में उस का जव खड़ा है तुम जाकर उस में आग लगाओ । सो अबशालोम के
- ३१ सेवकों ने उस खेत में आग लगाई । तब योआब उठ अबशालोम के घर में उस के पास जाकर उस से पूछने लगा तेरे सेवकों ने मेरे खेत में क्यों आग लगाई है ।
- ३२ अबशालोम ने योआब से कहा मैं ने तो तेरे पास यह कहला भेजा था कि यहां आ कि मैं तुम्हें राजा के पास

यह कहने को भेज कि मैं गश्शर से क्यों आया मैं अब लों बहा रहता तो अच्छा होता सो अब राजा मुझे दर्शन दे और यदि मैं दोषी हूं तो वह मुझे मार डाले । सो योआब ने राजा के पास जाकर उस को यह बात सुनाई और राजा ने अबशालोम को बुलवाया और वह उस के पास गया और उस के सन्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दण्डवत् की और राजा ने अबशालोम को चूमा ॥

१५. इस के पीछे अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़नेवाले पचास मनुष्य रख लिये । फिर अबशालोम सबेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था और जब जब कोई मुद्ई राजा के पास न्याय के लिये आता तब तब अबशालोम उस को पुकारके पूछता था तु किस नगर से आता है और वह कहता था कि तेरा दास इस्राएल के फुलाने गोत्र का है । तब अबशालोम उस से कहता था कि सुन तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है पर राजा की ओर से तेरी सुननेहारा कोई नहीं है । फिर अबशालोम यह भी कहा करता था कि भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता कि जितने मुकद्दमावाले होते सो सब मेरे ही पास आते और मैं उन का न्याय चुकाता । फिर जब कोई उसे दण्डवत् करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उस को पकड़के चूम लेता था । और जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकद्दमा तै करने को आते उन सभी से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार करता था सो अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया ॥

चार बरस के बीते पर अबशालोम ने राजा से कहा मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मजत को पूरी करने दे जो मैं ने यहोवा की मानी है । तेरा दास तो जब आराम के गश्शर में रहता था तब यह कहकर यहोवा की मजत मानी कि यदि यहोवा मुझे सबभुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा । राजा ने उस से कहा कुशलक्षेम से जा सो वह चलकर हेब्रोन को गया । तब अबशालोम ने इस्राएल के सारे गोत्रों में यह कहने को भेदिये भेजे कि जब नरसिंगे का शब्द तुम को सुन पड़े तब कहना कि अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ । और अबशालोम के संग दो सौ नेव-तहरी यरूशलेम से गये वे सीधे मन से उस का भेद बिना जाने गये । फिर जब अबशालोम का यश हुआ तब उस ने गीलोवासी अहीतोपेल को जो दाऊद का

मंत्री था बुलवा भैया कि वह अपने नगरों गीलो से आए । और राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा क्योंकि अवशालोम के पक्ष के लोग बढ़ते गये ॥

(दाऊद का भागना)

- १३ तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इस्राएली मनुष्यों के मन अवशालोम की ओर हो गये हैं । तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उस के संग थे कहा आओ हम भाग चलें नहीं तो हम में से कोई अवशालोम से न बचेगा सो फुर्ती करके चलो ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ ले और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले । राजा के कर्मचारियों ने उस से कहा जैसा हमारा प्रभु राजा अच्छा जाने वैसा ही करने के लिये १४ तेरे दास तैयार हैं । तब राजा निकल गया और उस के पीछे उस का सारा घराना निकला और राजा दस रखेलियों का भवन की चौकसी करने के लिये छोड़ गया । १७ सो राजा निकल गया और उस के पीछे सब लोग १८ निकले और वे बेतमेहक<sup>२</sup> में ठहर गये । और उस के सब कर्मचारी उस के पास से होकर आगे गये और सब करेती और सब पलेती और सब गती अर्थात् जो लुः सी पुरुष गत से उस के पीछे हो लिये थे सो सब राजा के १९ साम्हने हो कर आगे चले । तब राजा ने गती इत्तै से पूछा हमारे संग तू क्यों चलता है लौटकर राजा के पास रह क्यों कि तू परदेशी और अपने देश से दूर है सो अपने स्थान को २० लौट जा, तू तो कल ही आया है क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं मैं तो जहां जा सकूं वहां जाऊंगा तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे ईश्वर की २१ कृपा और सच्चाई तेरे संग रहे । इत्तै ने राजा को उत्तर देकर कहा यहोवा के जीवन की सोह और मेरे प्रभु राजा के जीवन की सोह जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहे चाहे मग्ने के लिये हो चाहे जीते रहने के लिये २२ उसी स्थान में तेरा दाम रहेगा । तब दाऊद ने इत्तै से कहा पार चल सो गती इत्तै अपने पारे जनों और अपने २३ साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया । सब रहने-हारे<sup>३</sup> चिल्ला चिल्लाकर रो रहे थे और सब लोग पार हुए और राजा भी किद्रोन नाम नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार २४ होकर चले । तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उस के संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उभये हुए हैं और उन्होंने ने परमेश्वर के संदूक को धर

दिया तब एब्द्यातार चढ़ा और जब लों सब लोग नगर से न निकले तब लों वहीं रहा । तब राजा ने सादोक से कहा २५ परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा यदि यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उस को और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा । पर २६ यदि वह मुझ से ऐसा कहे कि मैं तुझ से प्रसन्न नहीं तो भी मैं हाजिर हूं जैसा उस को भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे । फिर राजा ने सादोक याजक से कहा २७ क्या तू दर्शी नहीं है सो कुशलचेम से नगर में लौट जा और तेरा पुत्र अहीमास और एब्द्यातार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटें । सुनो मैं जङ्गल के घाट के पास २८ तब लों ठहरा रहूंगा जब लों तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले । सो सादोक और एब्द्यातार ने परमे- २९ श्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया और आप वहीं रहे ॥

तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ३० ढांपे नंगे पांव रोंता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उस के संग थे सो भी सिर ढांपे रोते हुए चढ़ गये । तब ३१ दाऊद को यह समाचार मिला कि अवशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है । दाऊद ने कहा हे यहोवा अहीतोपेल की सभ्यति की मुखता की बना दे । जब दाऊद चोटा लों पहुँचा जहां परमेश्वर को दण्डित ३२ किया करते थे तब एरेकी हूरी अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उस से मिलने को आया । दाऊद ने उस ३३ से कहा यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिये भार ठहरेगा । पर यदि तू नगर को लौट कर अवशालोम से ३४ कहने लगे हे राजा मैं तेरा कर्मचारी हूंगा जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसा ही अब तेरा हूंगा तो तू मेरे हित के लिये अहीतोपेल की सभ्यति को निष्फल कर सकेगा । और क्या वहां तेरे संग सादोक और एब्द्या- ३५ तार याजक न रहेंगे सो राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एब्द्यातार याजकों को बताया करना । उन के साथ तो उन के दो पुत्र अर्थात् सादोक ३६ का पुत्र अहीमास और एब्द्यातार का पुत्र योनातान वहां रहेंगे सो जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना । सो दाऊद का मित्र हूरी ३७ नगर में गया और अवशालोम भी यरूशलेम में पहुँच गया ॥

१६. दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मपीबेशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जिन बाघे हुए गर्दहां पर दो

(१) मूल में उस के पांवों पर ।

(२) अर्थात् दूर।श्रम ।

(३) मूल में सारा देश ।

- १ री रोटी किशमिषा की एक ली टिकिया धूपकाल के फल  
की एक ली टिकिया और कुम्भी भर दाखमधु लावे हुए  
२ उस से आ भिक्षा। राजा ने सीवा से पूछा इन से तेरा  
क्या प्रयोजन है सीवा ने कहा गद्दे तो राजा के घराने  
की सबारी के लिये हैं और रोटी और धूपकाल के फल  
जवानों के खाने के लिये हैं और दाखमधु इसलिये है  
३ कि जो कोई जंगल में थक जाए सो उसे पीए। राजा ने  
पूछा फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है सीवा ने राजा से  
कहा वह तो यह कहकर यरुशालोम में रह गया कि अब  
इसाएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा।  
४ राजा ने सीवा से कहा जो कुछ मपीभोशेत का था सो  
सब तुझे भिन्न गया सीवा ने कहा प्रणाम हे मेरे प्रभु हे  
राजा मुझ पर तेरी अनुमति की दृष्टि बनी रहे ॥
- ५ जब दाऊद राजा बहरीम लो पहुँचा तब शाऊल  
का एक कुटुम्बी वहाँ से निकला वह गीरा का पुत्र शिमी  
६ नाम था और वह कौसता हुआ चला आया, और दाऊद  
पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने  
लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उस की दृष्टिनी बाई  
७ देानों और थे। और शिमी कौसता हुआ यों बकता गया  
८ कि रे खूनी रे ओछे निकल जा निकल जा। यहोवा ने तुझ  
से शाऊल के घराने के खून का पूरा पतला लिया है जिस  
के स्थान पर तू राजा हुआ है। यहोवा ने राज्य को तेरे  
पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है और तू जो खूनी है  
९ इस से तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तब सरुयाह के  
पुत्र अभीशै ने राजा से कहा यह मरा हुआ कुत्ता मेरे  
प्रभु राजा को क्यों कौसने पाए मुझे उधर जाकर उस  
१० का शिर काटने दे। राजा ने कहा सरुयाह के बेटो मुझे  
तुम से क्या काम वह जो कौसता है और यहोवा ने  
जो उस से कहा है कि दाऊद को कौस सो उस से कौन  
११ पूछ सकता है कि तू ने ऐसा क्यों किया। फिर दाऊद  
ने अभीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा जब  
मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है तो यह बिन्या-  
मीनी अब ऐसा क्यों न करे उस को रहने दो और कौसने  
१२ दे। क्योंकि यहोवा ने उस से कहा है। क्या जानिये  
यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके  
१३ आज के कौसने की सती मुझे भला बदला दे। सो  
दाऊद अपने जनों समेत मार्ग में चला गया और शिमी  
उस के साम्हने के पहाड़ की अलंग पर से कौसता और  
उस पर पत्थर और धूलि फेंकता हुआ चला गया।  
१४ निदान राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने  
पर थका हुआ पहुँचा और वहाँ सुस्ताया ॥
- १५ अबशालोम सब इस्राएली लोगों समेत यरुशालोम

के आया और उस के संग अहीतोपेल भी आया।  
जब दाऊद का मित्र एरेकी हूशै अबशालोम के पास १६  
पहुँचा तब हूशै ने अबशालोम से कहा राजा जीता रहे  
राजा जीता रहे। अबशालोम ने उस से कहा क्या यह १७  
तेरी मीति है जो तू अपने मित्र से रखता है तू अपने  
मित्र के संग क्यों नहीं गया। हूशै ने अबशालोम से १८  
कहा ऐसा नहीं जिस को यहोवा और वे लोग क्या  
बरन सब इस्राएली लोग चाहें उसी का मैं हूँ और उसी  
के संग मैं रहूँगा। और फिर मैं किस की सेवा करूँ क्या १९  
उस के पुत्र के साम्हने रहकर सेवा न करूँ असा मैं तेरे  
पिता के साम्हने रहकर सेवा करता था वैसा ही तेरे  
साम्हने रहकर सेवा करूँगा। तब अबशालोम ने अही- २०  
तोपेल से कहा तुम लोग अपनी सम्मति दो कि क्या  
करना चाहिये। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा जिन २१  
रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को  
छोड़ गया उन के पास तू जा और जब सब इस्राएली  
यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उस से घिनात है  
तब तेरे सब संगी हियाव बाँधेंगे। सो उस के लिये भवन २२  
को छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशा-  
लोम सारे इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के  
पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था २३  
सो ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन  
पूछ लेता था अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशा-  
लोम को जो जो सम्मति देता सो वैसी ही होती थी ॥

### १७. फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से

कहा मुझे बारह हजार पुरुष  
छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद  
का पीछा करूँगा। और जब वह थका और निर्बल होगा २  
तब मैं उसे पकड़ूँगा और डराऊँगा और जितने लोग  
उस के साथ हैं सब भागेंगे और मैं राजा ही को  
मारूँगा। और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊँगा ३  
जिस मनुष्य का तू खोजी है उस के मिलने से सारी प्रजा  
का मिलना हो जायगा, सो सारी प्रजा कुशलक्षेम से रहेगी।  
यह बात अबशालोम और सब इस्राएली पुरनियों को ४  
ठीक जची ॥

फिर अबशालोम ने कहा एरेकी हूशै को भी बुला ५  
ला और जो वह कहेगा हम उसे भी सुनें। जब हूशै ६  
अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उस से कहा  
अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है क्या हम ७  
उस की बात मानें कि नहीं जो महीं तो तू कह दे। हूशै ८  
ने अबशालोम से कहा जो सम्मति अहीतोपेल ने इस  
बार दी सो अच्छी नहीं। फिर हूशै ने कहा तू तो अपने ९

पिता और उस के जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान कं धित होवे और तेरा पिता योद्धा है और और लोगों के साथ रात नहीं बिताता । इस समय तो यह किसी गढ़दे वा किसी ऐसे स्थान में छिपा होगा सो जब इन में से पहिले पहिल कोई कोई मारे जाएं तब इस के सब सुननेहारे कहने लगेंगे कि अबशालोम के पक्षवाले हार गये । तब बीर का हृदय जो सिंह का सा हो उस का भी सारा हियाव छूट जाएगा सारा इस्साएल तो जानता है कि तेरा पिता बीर है और उस के संगी बड़े योद्धा हैं । सो मेरी सम्मति यह है कि दान से ले बेरोका लो रहनेहारे सारे इस्साएली तेरे पास समुद्रतीर की बाजू के किनकों के समान इकट्ठे किये जाएं और तू भाव ही युद्ध को जाए । सो जब हम उस को किसी न किसी स्थान में जहां बह मिले जा पकड़ेंगे तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टट पड़ेंगे तब न तो वह बचेगा न उस के संगियों में से कोई बचेगा । और यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इस्साएली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नाते में खींचेंगे यहां तक कि उस का एक छोटा सा पत्थर न रह जाएगा । तब अबशालोम और सब इस्साएली पुरुषों ने कहा एरेकी हूशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है । यहोना ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति निफल करने को ठाना था इसलिये कि यह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले ॥

तब हूशै ने सादोक और एब्द्यात्तार याजकों से कहा अहीतोपेल ने तो अबशालोम और इस्साएली पुरनियों को इस इस प्रकार की सम्मति दी और मैं ने इस इस प्रकार की सम्मति दी है । सो अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना अवश्य पास ही हो जाना ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उस के संग हों सब नाश हो जाएं । योनातान और अहीमास एनरोगेल के पास ठहरे रहे और एक लौंडी जाकर उन्हें संदेशा दे आती थी और वे जाकर राजा दाऊद को संदेशा देते थे क्योंकि वे किसी के देखते नगर में न जा सकते थे । एक छोकरे ने तो उन्हें देखकर अबशालोम को बताया पर वे दोनों फुर्ती से चले गये और एक बहरीमवासी मनुष्य के घर पहुँच कर जिस के आंगन में कूआ था उस में उतर गये । तब उस की स्त्री ने कपड़ा लेकर कूए के मुँह पर बिछाया और उस के ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया सो कुछ मालूम न पड़ा । तब अबशालोम के सेवर उस घर में उस की

(१) मूल में तेरा मुख ।

के पास जाकर कहने लगे अहीमास और योनातान कहा है स्त्री ने उन से कहा वे तो उस छोटी नदी के पार गये । सो उन्होंने ने उन्हें दूढ़ा और न पाकर यरूशलेम को लौटे । जब वे चले गये तब ये कूए में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया और दाऊद से कहा तुम लोग चलो फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी सम्मति दी है । तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठ कर यर्दन पार हो गया और पह फटने लो उन में से एक भी न रह गया जो यर्दन के पार न हो गया हो । जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ तब उस ने अपने गढ़दे पर काठी कसी और अपने नगर जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी सो देकर अपने फांसी लगाई, सो वह मरा और अपने पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दी गई ॥

दाऊद तो महनैम में पहुँचा । और अबशालोम सब इस्साएली पुरुषों समेत यर्दन के पार गया । और अबशालोम ने अमासा के योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया । यह अमासा एक पुरुष का पुत्र था जिस का नाम इस्साएली यिन्नो था और इस ने योआब की माता सरूयाह की बहिन अबीगल नाम नाहाश की बेटी से प्रसंग किया था । और इस्साएलियों और अबशालोम ने गिलाद देश में छावनी डाली ॥

जब दाऊद महनैम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और लौदब रबासी अम्मोनियों का पुत्र माफीर और रोगलीमवासी गिलादी बर्जिल्लै, चारपाइयां तसले मिट्टी के बर्तन गेहूँ जव मैदा लोबिया मसूर चबेना, मधु मक्खन भेड़ बकरियां और गाव के दही का पनीर दाऊद और उस के संगियों के खाने को यह सोच कर ले आये कि जंगल में वे लोग भूख यके प्यासे होंगे ॥

१८. तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्रपति और शतपति ठहराये । फिर दाऊद ने लोगों की एक तिहाई तो योआब के और एक तिहाई सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै के और एक तिहाई गती इत्तै के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया । और राजा ने लोगों से कहा मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा । लोगों ने कहा तू जाने न पाएगा क्योंकि चाहे हम भाग जायें तो भी वे हमारी चिन्ता न करेंगे वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं तो भी वे हमारी चिन्ता न करेंगे

क्योंकि हमारे सरीखे दस हजार पुरुष हैं सो उत्तम वह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे ।  
 ५ राजा ने उन से कहा जो कुछ तुम्हें भाए सोई मैं करूँगा । सो राजा फाटक की एक और खड़ा रहा और सब लोग  
 ६ सो सो और हजार हजार करके निकलने लगे । और राजा ने योआब अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात् अबशालोम से कीमलता करना । यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों की  
 ७ सब लोगों के सुनते दी । सो लोग इस्राएल का साम्हना करने की मैदान में निकले और एप्रैम नाम वन में युद्ध हुआ । वहाँ इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार गये और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि बीस हजार खेत  
 ८ आये । और वहाँ युद्ध उस सारे देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गये उन से भी  
 ९ अधिक वन के कारख मर गये । संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों का भेंट हो गई अबशालोम तो एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े शंभु वृक्ष की धनी डालियों के नीचे से गया और उस का सिर उस बाँज वृक्ष में अटक गया और वह अंधर में लटका रहा और उस का खच्चर निकल गया ।  
 १० इस को देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया कि मैं ने अबशालोम को बाँज वृक्ष में टंगा हुआ देखा ।  
 ११ योआब ने बतानेहारे से कहा तू ने यह देखा फिर क्यों उसे वहीं मारके भूमि पर न गिरा दिया तो मैं तुम्हें दस  
 १२ डकड़े चाँदी और एक फोंटा देता । उस मनुष्य ने योआब से कहा चाहे मेरे हाथ में हजार डकड़े चाँदी तौलकर दिये जाएँ तौभी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊँगा क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुम्हें और अबीशै और इत्तै को यह आज्ञा दी कि तुम में से कोई क्यों न हो उस  
 १३ जवान अर्थात् अबशालोम को न छुए । नहीं तो यदि धोखा देकर उस का प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती ।  
 १४ योआब ने कहा मैं तेरे संग ऐसा ठहर नहीं सकता । सो उस ने तीन लकड़ी हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय  
 १५ में जो बाँज वृक्ष में जीता लटका था गाड़ दी । तब योआब के दस हथियार दोनेहारे जवानों ने अबशालोम  
 १६ को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया । फिर योआब ने नरसिंगा फुंका और लोग इस्राएल का पीछा करने से  
 १७ लौटे क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था । तब लोगों ने अबशालोम को उतार के उस वन में के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया और सब इस्राएली अपने

अपने डेरे को भाग गये । अपने जीते जी अबशालोम ने १८ यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करानेहारा कोई पुत्र मेरे नहीं है अपने लिये वह लाठ खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है और लाठ का अपना ही नाम रक्खा सो वह आज के दिन तो अबशालोम की लाठ कहलाती है ॥

और सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा मुझे दौड़ १९ कर राजा को यह समाचार देने दे कि यद्दोबा ने न्याय करके तुम्हें तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है । योआब ने उस से कहा तू आज के दिन समाचार न दे दूसरे दिन समाचार देने पाएगा पर आज समाचार न दे इसलिये कि राजकुमार मर गया है । तब योआब ने एक कृशी २१ से कहा जो कुछ तू ने देखा है सो जाकर राजा को बता दे । सो वह कृशी योआब को दण्डवत् करके दौड़ा गया । फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से २२ कहा जो हो सो ही पर मुझे भी कृशी के पीछे दौड़ जाने दे । योआब ने कहा हे मेरे बेटे तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा सो तू क्यों दौड़ जाने चाहता है । उस ने कहा यह जो हो सो हो पर मुझे दौड़ जाने दे २३ उस ने उस से कहा दौड़ तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कृशी के आगे बढ़ गया ॥

दाऊद तो दो फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ २४ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था उस ने आँखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है । जब पहरुए ने पुकारके राजा को यह २५ बता दिया तब राजा ने कहा यदि अकेला आता हो तो सन्देश लाता होगा । वह दौड़ते दौड़ते निकट आया । फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख २६ फाटक के रखेवाले को पुकारके कहा सुन एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है । राजा ने कहा वह भी सन्देश लाता होगा । पहरुए ने कहा मुझे तो ऐसा देख २७ पड़ता है कि पहिले का दौड़ना सादोक के पुत्र अहीमास का सा है राजा ने कहा वह तो भला मनुष्य है सो भला सन्देश लाता होगा । तब अहीमास ने पुकारके राजा से २८ कहा कल्याण फिर उस ने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दण्डवत् करके कहा तेरा परमेश्वर यद्दोबा धन्य है जिस ने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठानेहारे मनुष्यों को तेरे बश कर दिया है । राजा ने पूछा क्या उम २९ जवान अबशालोम का कल्याण है अहीमास ने कहा जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी पर मालूम न हुआ कि क्या हुआ था । राजा ने कहा हटकर यहीं ३० खड़ा रह सो वह हटकर खड़ा रहा । तब कृशी भी आ ३१



गया और कूशी कहने लगा मेरे प्रभु राजा के लिये समा-  
 १२ चार है यहोवा ने आज न्याय करके तुम्हें उन सभी के  
 हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे । राजा ने  
 कूशी से पूछा क्या वह जवान अर्थात् अबशालोम  
 कन्याया से है कूशी ने कहा मेरे प्रभु राजा के शत्रु और  
 १३ जितने तेरी हानि के लिये उठे हैं उन की दशा उस  
 जवान की सी हो । तब राजा बहुत बबराया और फाटक  
 के ऊपर की आटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते  
 चलते बौं कहता गया कि हाथ मेरे बेटे अबशालोम मेरे  
 बेटे हाथ मेरे बेटे अबशालोम भला होता कि मैं आप  
 तेरी सन्ती मरता हाथ अबशालोम मेरे बेटे मेरे बेटे ॥

(दाऊद का यरूशलेम को लौटना)

१६. तब योआब को यह समाचार मिला  
 कि राजा अबशालोम के लिये

१ रो रहा और विलाप कर रहा है । सो उस दिन का  
 विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण  
 बन गया क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने  
 ३ बेटे के लिये खेदित है । और उस दिन लोग ऐसा मुंह  
 चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भाग आने से  
 ४ लज्जित होकर मुंह चुराते हैं । और राजा मुंह टापे हुए  
 चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा कि हाथ मेरे बेटे अबशा-  
 ५ लोम हाथ अबशालोम मेरे बेटे मेरे बेटे । सो योआब  
 घर में राजा के पास जाकर कहने लगा तेरे कर्मचारियों  
 ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटों बेटियों का और तेरी  
 स्त्रियों और रखेलियों का प्राण तो बचाया है पर तू ने  
 ६ आज के दिन उन सभी का मुंह काला किया है । कैसे  
 कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर  
 रखता है । तू ने आज यह प्रगट किया कि तुम्हें हाकिमों  
 और कर्मचारियों की कुछ चिन्ता नहीं बरन मैं ने आज  
 जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अब-  
 ७ शालोम जीता रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता । सो अब  
 उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शान्ति दे  
 नहीं तो मैं यहोवा की किरिया खाकर कहता हूँ कि यदि  
 तू बाहर न जाए तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे  
 संग न रहेगा और तेरे बचपन से लेकर अब तों जितनी  
 विपत्तियां तुझ पर पड़ी हों उन सब से यह विपत्ति बड़ी  
 ८ होगी । सो राजा उठकर फाटक में जा बैठा और जब  
 सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा  
 है तब सब लोग राजा के साम्हने आये ॥

और इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गये थे ।

९ और इस्राएल के सब गोत्रों में सब लोग आपस में यह  
 कहकर भगाड़ते थे कि राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ

से बचाया था और पलिशियों के हाथ से उसी ने हमें  
 छोड़ा पर अब वह अबशालोम के डर के मारे देश  
 छोड़कर भाग गया । और अबशालोम जिस का हम ने १०  
 अपना राजा होने को अभिषेक किया था सो युद्ध में मर  
 गया है सो अब तुम क्यों चुप रहते और राजा को लौटा  
 ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते ॥

तब राजा दाऊद ने सादोक और एन्यातार आजकों ११  
 के पास कहला मेजा कि यहूदी पुरनियों से कहो कि तुम  
 लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिये सब से पीछे क्यों  
 होते हो, जब कि सारे इस्राएल की बातचीत राजा के  
 सुनने में आई है कि उस को भवन में पहुंचाएं । तुम लोग तो १२  
 मेरे भाई बरन हाड़ ही मांस हो सो तुम राजा को लौटाने  
 में सब के पीछे क्यों होते हो । फिर अमासा से यह कहो १३  
 कि क्या तू मेरा हाड़ मांस नहीं है और यदि तू योआब  
 के स्थान पर सदा के लिये सेनापति न उठरे तो परमेश्वर  
 मुझ से वैसा ही बरन उस से भी अधिक करे । सो उस ने १४  
 सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया  
 कि मानों एक ही पुरुष था और उन्होंने ने राजा के पास  
 कहला मेजा कि तू अपने सब कर्मचारियों को संग  
 लेकर लौट आ । सो राजा लौटकर यर्दन तक आ गया १५  
 और यहूदी लोग गिलगाल गये कि उस से मिलकर उसे  
 यर्दन पार ले आए ॥

यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी १६  
 जो बहुरीमी था कुर्ती करके राजा दाऊद से मेट करने  
 का गया । उस के संग हजार बिन्यामीनी पुरुष थे और १७  
 शाऊल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने पन्द्रहों पुत्रों  
 और बीसों दासों समेत था और वे राजा के साम्हने यर्दन  
 के पार पांव पांव उत्तर गये । और एक बेड़ा राजा के १८  
 परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे  
 लगाने चाहे उसी में लगाने के लिये पार गया । और जब  
 राजा यर्दन पार जाने पर या तब गेरा का पुत्र शिमी १९  
 उस के पांवों पर गिरके, राजा से कहने लगा मेरा प्रभु  
 मेरे दोष का लेखा न करे और जिस दिन मेरा प्रभु राजा  
 यरूशलेम को छोड़ आया उस दिन तेरे दास ने जो  
 कुटिल काम किया उसे ऐसा स्मरण न कर कि राजा उसे  
 अपने ध्यान में रखे । क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैं ने २०  
 पाप किया सो देख आज अपने प्रभु राजा से मेट करने  
 के लिये यूसुफ के सारे घराने में से मैं ही पहिला आया  
 हूँ । तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने कहा शिमी ने जो २१  
 यहोवा के अभिषेक को केसा था इस कारण क्या उस  
 को बच करना न चाहिये । दाऊद ने कहा हे सरूयाह २२  
 के बेटो मुझे तुम से क्या काम कि तुम आज मेरे

विरोधी ठहरे हो आज क्या इस्राएल में किसी को प्राणदण्ड मिलेगा क्या मैं नहीं जानता कि आज इस्राएल का राजा हुआ है । फिर राजा ने शिमी से कहा तुम्हें प्राणदण्ड न मिलेगा और राजा ने उस से किरिया भी खारि ॥

२४ तब शाऊल का भोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया उस ने राजा के चले जाने के दिन से उस के कुशलचेम से फिर आने के दिन लौ न अपने पांशों के मखून काटे न अपनी डाढ़ी बनवाई और न अपने कपड़े

२५ धुलवाये थे । सो जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गये तब राजा ने उस से पूछा है मपीबोशेत तू मेरे संग क्यों न गया था । उस ने कहा है मेरे प्रभु है राजा मेरे कर्मचारी ने मुझे भौंखा दिया था तेरा दास जो पंगु है इसलिये तेरे दास ने सोचा कि मैं गदहे पर काठी कसाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा ।

२७ और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के साम्हने मेरी चुगली खाई है पर मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के वृत के समान

२८ है सो जो कुछ तुम्हें भाए वही कर । मेरे पिता का सारा घराना तेरी ओर से प्राणदण्ड के जेभ्य था पर तू ने अपने दास को अपनी भेज पर खानेहारों में गिना है

२९ मुझे क्या हक है कि मैं राजा की और दोहाई दू । राजा ने उस से कहा तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तू और

३० सीबा दोनों आपस में बांट लो । मपीबोशेत ने राजा से कहा मेरा प्रभु राजा जो कुशलचेम से अपने घर आया है इसलिये सीबा ही सब कुछ रखे ॥

३१ तब गिलादी बर्जिल्लै रोगलीम से आया और राजा के यर्दन पार पहुंचाने को राजा के संग यर्दन पार

३२ गया । बर्जिल्लै तो बहुत पुरनिया अर्थात् अस्सी बरस का था और जब लो राजा महनैम में रहता था तब लो वह उस का पालन पोषण करता रहा क्योंकि वह बहुत

३३ धनी था । सो राजा ने बर्जिल्लै से कहा मेरे संग पार चल और मैं तुम्हें यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा

३४ पालन पोषण करूंगा । बर्जिल्लै ने राजा से कहा मुझे कितने दिन जीना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को

३५ जाऊं । आज मैं अस्सी बरस का हूँ क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उस का स्वाद पहिचान सकता क्या मुझे गानेहारों वा

३६ गानेहारियों का शब्द अब सुन पड़ता है सो तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिये मार क्यों ठहरे । तेरा दास राजा के संग यर्दन पार ही तक जाएगा राजा इस

३७ का ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे । अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के

कब्रितान के पास मरूँ पर तेरा दास किम्हाम हाजिर है मेरे प्रभु राजा के संग वह पार जाए और जैसा तुम्हें भाए तैसा ही उस से व्यवहार करना । राजा ने कहा ३८ हां किम्हान मेरे संग पार चलेगा और जैसा तुम्हें भाए वैसा ही मैं उस से व्यवहार करूंगा बरन जो कुछ तू मुझ से चाहेगा सो मैं तेरे लिये करूंगा । तब सब ३९ लोग यर्दन पार गये और राजा भी पार हुआ तब राजा ने बर्जिल्लै को चूमकर आशीर्वाद दिया और वह अपने स्थान को लौट गया ॥

(शेबा की राजद्रोह की गोष्ठी)

सो राजा गिल्गाल की ओर पार गया और उस ४० के संग किम्हाम पार हुआ और सब यहूदी लोगों ने और आये इस्राएली लोगों ने राजा को पार किया ।

तब सब इस्राएली पुरुष राजा के पास आये और राजा ४१ से कहने लगे क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुम्हें चोरी से ले आये और परिवार समेत राजा को और उस

के सब जनों को भी यर्दन पार लाये हैं । सब यहूदी ४२ पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों को उत्तर दिया कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है सो तुम लोग इस बात से

क्यों रुठ गये हो क्या हम ने राजा का दिया हुआ कुछ खाया वा उस ने हमें कुछ दान दिया है । इस्राएली ४३ पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया राजा में दस अंश हमारे हैं और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से

बड़ा है सो तुम ने हमें क्यों तुच्छ जाना क्या अपने राजा के लौटा ले आने की चर्चा पहिले हम ही ने न

की थी । और यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कही ॥

२० वहां संयोग से शेबा नाम एक बिन्यामीनी ओछा था जो बिक्री का पुत्र था वह नरसिगा फूंककर कहने लगा दाऊद में हमारा

कुछ अंश नहीं और न यिरी के पुत्र में हमारा कोई भाग है हे इस्राएलियो अपने अपने डेरे को चले जाओ । सो २

सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिये पर सब यहूदी पुरुष यर्दन से यरूशलेम लो अपने राजा के संग लगे रहे ॥

तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया ३ और राजा ने उन दस रखेलियों को जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था अलग एक घर में

रक्खा और उन का पालन पोषण करता रहा पर उन से प्रसंग न किया सो वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन लो विधवापन की ती दशा में जीती हुई बन्द रहीं ॥

तब राजा ने अमासा से कहा यहूदी पुरुषों को तीन ४

दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहाँ हाजिर  
 ६ होना । सो अमासा यहूदियों को बुला लाने गया पर  
 ७ उस के ठहराये हुए समय से अधिक रहा । सो दाऊद ने  
 अश्वीशै से कहा अब बिक्री का पुत्र शेबा अग्शातेम से  
 ८ भी हमारी अधिक हानि करेगा सो तू अपने प्रभु के  
 लोगों को लेकर उस का पीछा कर ऐसा न हो कि वह  
 ९ गढ़वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए । तब  
 योआब के जन और करेती और पलेती लोग और सारे  
 शूरवीर उस के पीछे हो लिये और बिक्री के पुत्र शेबा  
 ८ का पीछा करने को यरूशलेम से निकले । वे गिबोन में  
 के गरी पथर के पास पहुँचे ही थे कि अमसा उन से  
 आ मिला । योआब तो योआब का वस्त्र फेंके से कसे हुए  
 था और उस फेंके में एक तलवार उस की कमर पर  
 अपनी मियान में बन्धी हुई थी और जब वह चला तब  
 ९ वह निकलकर गिर पड़ी । सो योआब ने अमासा से  
 पूछा हे मेरे भाई क्या तू कुशल से है तब योआब ने  
 अपना दहिना हाथ बढ़ाकर अमासा की चूमने के लिये  
 १० उस की दाढ़ी पकड़ी । पर अमासा ने उस तलवार की  
 कुछ चिन्ता न की जो योआब के हाथ में थी सो उस  
 ने उसे अमासा के पेट में भोंककर उस की अन्तरियाँ  
 गिरा दीं और उस को दूसरी बार न मारा और वह  
 मरा । तब योआब और उस का भाई अश्वीशै बिक्री के  
 ११ पुत्र शेबा का पीछा करने को चले । और उस के पास  
 योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा जो कोई  
 योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो सो योआब  
 १२ के पीछे हो ले । अमासा तो सड़क के बीच अपने लौह  
 में लोट रहा था सो जब उस मनुष्य ने देखा कि सब  
 लोग खड़े हो जाते हैं तब अमासा को सड़क पर से  
 मैदान में सरका दिया और जब देखा कि जितने उस के  
 १३ कपड़ा डाल दिया । उस के सड़क पर से सरकाये जाने  
 पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को  
 १४ योआब के पीछे हो लिये । और वह सब इस्राएली गोत्रों  
 में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के सारे देश  
 तक पहुँचा और वे भी इकट्ठे होकर उस के पीछे हो  
 १५ लिये । तब उन्होंने ने उस को बे-माका के आबेल में घेर  
 लिया और नगर के साम्हने ऐसा धुस बांधा कि वह केट  
 से सट गया और योआब के संग के सब लोग शहर-  
 १६ पनाह को गिराने के लिये धक्का देने लगे । तब एक  
 बुद्धिमान् स्त्री ने नगर में से पुकारा सुनो सुनो योआब

से कहो कि यहाँ आ एक स्त्री तुझ से बातें करना  
 चाहती है । जब योआब उस के निकट गया तब स्त्री ने १७  
 पूछा क्या तू योआब है उस ने कहा हाँ मैं वहीं हूँ फिर  
 उस ने उस से कहा अपनी दासी के बचन सुन उस ने  
 कहा मैं तो सुन रहा हूँ । वह कहने लगी प्राचीनकाल १८  
 में तो लोग कहा करते थे कि आबेल में पूछा जाए और  
 इस रीति अगळे को निपटा देते थे । मैं तो मेलमिलापवाले १९  
 और विश्वासयोग्य इस्राएलियों में से हूँ पर तू एक  
 प्रधान नगर नाश करने का यत्न करता है तू यहोवा  
 के भाग को क्यों निगल जाएगा । योआब ने उत्तर २०  
 देकर कहा वह मुझ से दूर हो दूर कि मैं निगल जाऊँ  
 वा नाश करूँ । बात ऐसी नहीं है शेबा नाम एप्रैम के २१  
 पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है उस ने  
 दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है सो तुम लोग  
 केवल उसी को सँप दो तब मैं नगर को छोड़कर चला  
 जाऊंगा । स्त्री ने योआब से कहा उस का सिर शहर-  
 पनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा । तब स्त्री २२  
 अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई सो उन्होंने  
 ने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास  
 फेंक दिया । तब योआब ने नरसिया फूँका और सब लोग  
 नगर के पास से फूट फाटकर अपने अपने डेरे को गये  
 और योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया ॥

योआब तो सारी इस्राएली सेना के ऊपर रहा और २३  
 यहोयादा का पुत्र अनायाह करेतियों और पलेतियों के  
 ऊपर था, और अदोराम बेगारों के ऊपर था और अही- २४  
 लूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लिखनेवाला था  
 और शया मंत्री था और सादोक और एब्थाताम याजक  
 थे और याईरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था ॥

(गिबोनियों का पलटा लिया जाना)

## २१. दाऊद के दिनों में बरस बरस तीन

बरस तक अकाल हुआ सो दाऊद  
 ने यहोवा से प्रार्थना की । यहोवा ने कहा यह शाऊल  
 और उस के खूनी घराने के कारण हुआ कि उस ने  
 गिबोनियों को मरवा डाला था । तब राजा ने गिबोनियों २  
 को बुलाकर उन से बातें की । गिबोनी लोग तो इस्रा-  
 एलियों में से नहीं थे वे बचे हुए एमोरियों में से थे और  
 इस्राएलियों ने उन के साथ किरिया खाई थी पर शाऊल  
 को जो इस्राएलियों और यहूदियों के लिये जलन हुई थी  
 इस से उस ने उन्हें मार डालने के लिये यत्न किया था ।

(१) मूल में हमारी भाँख निकाले ।

(२) मूल में मैं । (३) मूल में नगर और मा ।

(४) मूल में यहोवा का दर्शन हुआ ।

- ३ तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा मैं तुम्हारे लिये क्या करूँ और क्या करके ऐसा प्रायश्चित्त करूँ कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको । गिबोनियों ने उस से कहा हमारे और शाऊल वा उस के घराने के बीच कौये पैसे<sup>१</sup> का कुछ भगड़ा नहीं और न हमारा काम है कि किसी इस्राएली को मार डालें । उस ने कहा जा कुछ ५ तुम कदो सो मैं तुम्हारे लिये करूँगा । उन्होंने राजा से कहा जिस पुरुष ने हम को नाश कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति दी कि हम ऐसे सत्यानाश हो जाएँ कि ६ इस्राएल के देश में आगे को न रह जाएँ उस के वंश के सात जन हमें सौंप दिये जाएँ और हम उन्हें यहोवा के लिये यहोवा के चूने हुए शाऊल की गिवा नाम बस्ती ७ में फाँसी देंगे । राजा ने कहा मैं उन को सौंप दूँगा । पर दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की किरिया खाई थी इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को जो शाऊल का पोता था बचा ८ रक्खा । पर अर्मेनी और मपीबोशेत नाम अय्या की बेटी रिस्वा के दोनों पुत्र जो वह शाऊल के जन्माये जनी थी और शाऊल की बेटी मीकल के पाँचों बेटे जो वह महोलावासी बर्जल्लै के पुत्र अद्रीएल के जन्माये जनी थी ९ इन को राजा ने पकड़वाकर, गिबोनियों के हाथ सौंप दिया और उन्होंने उनहें पहाड़ पर यहोवा के साम्हने फाँसी दी और सातों एक साथ नाश हुए । उन का मार डाला जाना तो कठनी के पहिले दिनों अर्थात् जब की १० कठनी के आरम्भ में हुआ । तब अय्या की बेटी रिस्वा ने टाट लेकर कठनी के आरम्भ से लेकर जब लौ आकाश से उन पर अत्यन्त दृष्टि न पड़ी तब लौ चटान पर उसे अरने नीचे बिछाये रही और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को न रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने<sup>२</sup> दिया । ११ जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेली रिस्वा के इस १२ काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उस के पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था जहाँ पलिशितियों ने उन्हें उस दिन टांगा था जब पलिशितियों ने शाऊल १३ को गिल्बो पहाड़ पर मार डाला था । सो वह वहाँ से शाऊल और उस के पुत्र योनातान की हड्डियों को लिया ले आया और फाँसी पाये हुए की हड्डियाँ भी इकट्ठी १४ की गईं । और शाऊल और उस के पुत्र योनातान की हड्डियाँ बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल<sup>३</sup> के पिता

(१) मूल में सोने बान्दी ।

(२) मूल में उन पर विश्राम करने ।

(३) मूल में उस ।

कौस के कजिस्तान में गाड़ी गईं और दाऊद की सब आशाओं के अनुसार काम हुआ और उस के पीछे परमेश्वर ने देश के लिये प्रार्थना सुन ली ।

(दाऊद का पलिशितियों पर विजय)

पलिशितियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया और १५ दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिशितियों से लड़ने लगा पर दाऊद थक गया । तब विशबोबनोब जो रपाई १६ के वंश का था और उस के भाते का फल तौल में तीन सौ शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार<sup>४</sup> बाँधे हुए था उस ने दाऊद को मारने को ठाना । पर सरुथाह के १७ पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस पलिशितियों को ऐसा मारा कि वह मर गया । तब दाऊद के जनों ने किरिया खाकर उस से कहा तू फिर हमारे संग युद्ध का जाने न पाएगा न हो कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ जाए ॥

इस के पीछे पलिशितियों के साथ गोब में फिर युद्ध १८ हुआ उस समय हूशार्ई सिब्बकै ने रपाईवंशी सप को मारा । और गोब में पलिशितियों के साथ फिर युद्ध हुआ १९ उस में बेतलेहेमवासी यारयोरगीम के पुत्र एल्हानान ने गती गोल्यत को मार डाला जिस के बछे की छड़ कपड़े बुननेवाले के टेके के समान थी । फिर गत में भी २० युद्ध हुआ और वहाँ एक बड़ी डील का रपाईवंशी पुरुष था जिस के एक एक हाथ पाँच में छः छः अंगुली अर्थात् गिनती में चौबीस अंगुली थीं । जब उस ने इस्राएल को २१ ललकारा तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र यहोनातान ने उसे मारा । ये ही चार गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए २२ थे और वे दाऊद और उस के जनों से मार डाले गये ॥

(दाऊद का एक मजन)

२२. और जिस समय यहोवा ने दाऊद को उस के सारे शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था तब उस ने यहोवा के लिये इस गीत के वचन गाये, उस ने कहा २

यहोवा मेरी दांग और मेरा ग<sup>५</sup> और मेरा छुड़ानेहारा मेरा चटानरूपी परमेश्वर है जिस का मैं शरणागत हूँ ३ मेरा डाल मेरा बचानेहारा सींग मेरा ऊँचा गढ़ और मेरा शरणास्थान है ॥

हे मेरे उद्धारकर्ता तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है ॥

मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूँगा ४

और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊँगा ॥

मृत्यु के तरंग तो मेरे चारों ओर आये ५

(४) वा नये हथियार ।

- नीचपन की चारों ओर ने मुझे को बरसा दिया था ॥  
 १ अधोलोक को रस्सियां मेरे चारों ओर थीं  
 मृत्यु के लम्बे मेरे साम्हने थे ॥  
 ७ अपने संकट में मैं ने यहोवा को पुकारा  
 और अपने परमेश्वर को पुकारा  
 और उस ने मेरी बात को अपने मन्दिर में से  
 सुना  
 और मेरी देहाई उस के कानों पड़ी ॥  
 ८ सब पृथिवी हिल गई और डोल उठी  
 और आकाश की नेबें कांपकर  
 बहुत ही हिल गईं  
 क्योंकि वह क्रोधित हुआ था ॥  
 ९ उस के नथनों से धुंआ निकला  
 और उस के मुंह से आग निकलकर भस्म करने  
 लगी  
 जिस से कोयले दहक उठे ॥  
 १० और वह स्वर्ग को नीचे करके उतर आया  
 और उस के पांवों तले घोर अन्धकार था ॥  
 ११ और वह करुब पर चढ़ा हुआ उड़ा  
 और पवन के पैखों पर चढ़कर दिखाई दिया ॥  
 १२ और उस ने अपने चारों ओर के अन्धियारे को  
 मेवों के समूह और आकाश की काली घटाओं  
 को अपना मरडप ठहराया ॥  
 १३ उस के सन्मुख की भलक से  
 कोयले दहक उठे ॥  
 १४ यहोवा आकाश में गरजा  
 और परमप्रधान ने अपनी वाणी सुनाई ॥  
 १५ उस ने तीर चला चलाकर मेरे शत्रुओं को तितर  
 बितर किया  
 और बिजली गिरागिराकर उन को बरसा दिया,  
 १६ तब समुद्र की थाह देख पड़ी  
 जगत की नेबें खुल गईं  
 यह तो यहोवा की डाट से  
 और उस के नथनों की सांन की भोंक से हुआ ॥  
 १७ उस ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया  
 और गहरे में से खींच लिया ॥  
 १८ उस ने मुझे मेरे बलवन्त शत्रु से  
 मेरे बैरियों से जो मुझे से अधिक सामर्थी थे मुझे  
 छुड़ाया ॥  
 १९ उन्हों ने मेरी विपत्ति के दिन मेरा साम्हना तो  
 किया

(१) मूल में यहाँ । (२) मूल में उन को ।

- पर यहोवा मेरा आश्रय था ॥  
 और उस ने मुझे निष्काशकर चौड़े स्थान में १०  
 पहुँचाया ।  
 उस ने मुझे को छुड़ाया क्योंकि वह मुझे से प्रसन्न  
 था ॥  
 यहोवा ने मुझे से मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार २१  
 किया ॥  
 मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उस ने मुझे  
 बदला दिया ॥  
 क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा २२  
 और अपने परमेश्वर से फिरके दुष्ट न बना ॥  
 उस के सारे नियम तो मेरे साम्हने बने रहे २३  
 और उस की विधियों से मैं हट न गया ॥  
 और मैं उस के साथ खरा बना रहा २४  
 और अधर्म से अपने को बचाये रहा जिस में मेरे  
 फतने का डर था ॥  
 सो यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला २५  
 दिया  
 मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता  
 था ॥  
 दयावन्त के साथ तू अपने को दयावन्त दिखाता २६  
 खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है ॥  
 शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता २७  
 और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है ॥  
 और दीन लोगों को तो तू बचाता है २८  
 पर अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा  
 करता है ॥  
 हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है २९  
 और यहोवा मेरे अन्धियारे को दूर करके उजियाला  
 कर देता है ॥  
 तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता ३०  
 अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को  
 लांघ जाता हूँ ॥  
 ईश्वर की गति खरी है यहोवा का वचन ताया ३१  
 हुआ है  
 वह अपने सब शरणागतों की डाल ठहरा है  
 यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है ३२  
 हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चटान  
 है ॥  
 यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ स्थान ठहरा ३३  
 वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिये चलता है ॥

(३) मूल में अपने अधर्म से ।

- ३४ वह मेरे पैरों को हरिणियों के से करता है और  
मुझे ऊँचे स्थानों<sup>१</sup> पर खड़ा करता है ॥
- ३५ वह मुझे<sup>२</sup> बुद्ध करना सिखाता है  
मेरी बांहों से पीतल का धनुष नवता है ॥
- ३६ और तू ने मुझ को अपने बचाव की ढाल दी  
और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है ।
- ३७ तू मेरे पैरों के लिये स्थान चौड़ा करता है  
और मेरे टखने नहीं डिगे ॥
- ३८ मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें सत्यानाश  
करूँगा  
और जब लो उन का अन्त न करूँ तब लो न  
फिरूँगा ॥
- ३९ और मैं ने उन का अन्त किया और उन्हें ऐसा  
मारा कि वे उठ न सकेंगे  
वे मेरे पांवों के नीचे पड़े हैं ॥
- ४० और तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर बंधाई  
और मेरे विरोधियों को मेरे तले दबा दिया ॥
- ४१ और तू ने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई  
कि मैं अपने बैरियों को सत्यानाश करूँ ॥
- ४२ उन्होंने ने बाट तो जोही पर कोई बचानेहारा न  
मिला  
उन्होंने ने यहोवा की भी बाट जोही पर उस ने उन  
की न सुन ली ॥
- ४३ मैं ने उन को कूट कूट कर भूमि की धूलि के  
समान कर दिया  
मैं ने उन्हें सबकों की कीच की नाई पटक कर  
कैलाया ॥
- ४४ फिर तू ने मुझे प्रजा के भगड़ों से लुड़ाकर अन्य  
जातियों का प्रधान होने को मेरी रक्षा की जिन  
लोगों को मैं न जानता था सो भी मेरे अधीन हो  
जाएंगे ॥
- ४५ परदेशी मेरी चापलूसी करेंगे  
कान से सुनते ही वे मेरे वश में आएंगे ॥
- ४६ परदेशी मुर्झाएंगे  
और अपने कोटों में से थरथराते हुए निकलेंगे ॥
- ४७ यहोवा जीता है और जो मेरी चटान ठहरा सो  
धन्य है  
और परमेश्वर जो मेरे उद्धार के लिये चटान  
ठहरा उस की बढ़ाई हो ॥
- ४८ धन्य है मेरा पलटा लेनेहारा ईश्वर  
जो देश देश के लोगों को मेरे तले दबा देता है,

(१) मूल में मेरे ऊँचे स्थानों । (२) मूल में मेरे हाथ ।

- और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है ४९  
तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊँचा करता है  
और उपद्रवी पुरुष से बचाता है ॥  
इस कारण मैं जाति जाति के साम्हने तेरा धन्य- ५०  
बाद करूँगा  
और तेरे नाम का भजन गाऊँगा ॥  
वह अपने ठहराये हुए राजा का बड़ा उद्धार ५१  
करता है  
वह अपने अभिषिक्त दाऊद और उस के बंश पर  
युग युग करुणा करता रहेगा ॥

(दाऊद के जीवन के अन्तसमय के वचन)

२२. दाऊद के पिछले वचन ये हैं  
यिरी के पुत्र की यह बाणी है  
उस पुरुष की बाणी है जो ऊँचे पर खड़ा किया  
गया  
और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त  
और इस्राएल का मधुर भजन गानेहारा है ॥  
यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला २  
और उसी का वचन मेरे मुँह में<sup>३</sup> आया ॥  
इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है ३  
इस्राएल की चटान ने मुझ से बातें की हैं कि  
मनुष्यों में प्रभुता करनेहारा एक धर्मो होगा  
जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता  
करेगा ॥  
वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य ४  
निकलता है  
ऐसा भोर जिस में बादल न हों  
जैसा वर्षा के पीछे के निर्मल प्रकाश के कारण  
भूमि से हरी हरी घास उगती है ॥  
क्या मेरा धराना ईश्वर के लिले में ऐसा नहीं है ५  
उस ने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी बाचा  
बांधी है  
जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है  
क्योंकि चाहे वह उस को प्रकट न करे<sup>४</sup>  
तौभी<sup>५</sup> मेरा सारा उद्धार और सारी अभिलाषा  
का विषय वही है ॥  
पर ओछे सब के सब निकम्मी भाड़ियों के समान ६  
हैं जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती ॥

(३) मूल में मेरी जीभ पर । (४) मूल में न उगाए । वा सो क्या वह  
उस को न फंसाएगा । (५) वा इस कारण ।

- ७ सो जो पुरुष उन को छूने चाहे उसे लौंखर और भाले की छड़ लिये<sup>१</sup> जाना पड़ता है ।  
जो वे आग लगाकर अपने ही स्थान में भस्म की जाती हैं ॥  
(दाऊद के बीरों की नामावली)
- ८ दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं अर्थात् तहकमोनी कोशेव्यशेवेत जो सरदारों में मुख्य था वह एरुनी अदीनी भी कहलाता था उस से एक ही समय में आठ सौ पुरुष ९ मार डाले गये । उस के पीछे अहोही दोदै का पुत्र एला-जार था वह उस समय दाऊद के संग के तीनों बीरों में से था जब उन्होंने ने युद्ध के लिये बढ़े हुए पलिशितियों को १० तलकारा और इस्त्राएली पुरुष चले गये थे । वह कमर बांधकर पलिशितियों को तब लौं मारता रहा जब लौं उस का हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न गई और उस दिन यहोवा ने बड़ा विजय किया और जो लोग उस के पीछे हो लिये उन को केवल लूटना ही रह ११ गया । उस के पीछे आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था । पलिशितियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बान्धा, जहां मसूर का एक खेत था और लोग उन के डर के मारे १२ भागे । तब उस ने खेत के बीच खड़े होकर उसे बचाया और पलिशितियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ा विजय १३ किया । फिर तीसों मुख्य सरदारों में से तीन जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अबुल्लाम नाम गुफा में आये और पलिशितियों का दल रपाईम नाम तराई में छावनी १४ किये हुए था । उस समय दाऊद गड में था और उस १५ समय पलिशितियों की चौकी बेतलेहेम में थी । तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा कौन मुझे बेतलेहेम के १६ फाटक के पास के कूप का पानी पिलाएगा । सो वे तीनों बीर पलिशितियों की छावनी में दूढ़ पड़े और बेतलेहेम के फाटक के कूप से पानी भरके दाऊद के पास ले आये पर उस ने पीने से नाह की और यहोवा के साम्हने १७ अर्घ्य करके उखेलकर कहा, हे यहोवा मुझ से ऐसा करना दूर रहे क्या मैं उन मनुष्यों का लोहू पीऊं जो अपने प्राण पर खेलकर गये थे सो उस ने वह पानी पीने से नाह की । इन तीन बीरों ने तो ये ही काम १८ किये । और अमीशी जो सरुयाह के पुत्र योआब का भाई था वह तीनों में से मुख्य था । उस ने अपना भाला चलाकर तीन सौ को मार डाला और तीनों में १९ नामी हो गया । क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित

(१) कूल में से भरा ।

न था और इसी से वह उन का प्रधान हो गया पर मुख्य तीनों के पद को न पहुँचा । फिर यहोयादा का २० पुत्र बनायाह था जो कबसेलवासी एक बड़े काम करने-हारे बीर का पुत्र था । उस ने सिंह सरीखे दो मोआवियों को मार डाला और बरफ के समय उस ने एक गड़हे में उतरके एक सिंह को मार डाला । फिर उस ने एक २१ रूपवान् मिस्ती पुरुष को मार डाला जिन्ही तो हाथ में भाला लिये हुए था पर बनायाह एक लाठी ही लिये हुए उस के पास गया और मिस्ती के हाथ से भाले को छीन कर उसी के भाले से उसे घात किया । ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों २२ बीरों में नामी हो गया । वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित २३ तो था पर मुख्य तीनों के पद को न पहुँचा । उस को दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद किया ।

फिर तीनों में योआब का भाई असाहेल बेतलेहेमी २४ दोदो का पुत्र एल्हानान, हेरोदी शम्मा और एलीका, २५ पेलेती हेलेस तकोई इक्शे का पुत्र ईरा, अनातोती २६, २७ अबीएजेर हूशई मबुछै अहोही सरुमोन नतोपाही महरै २८ एक और नतोपाई बाना का पुत्र हेलेव बिन्ध्यामीनियों २९ के गिबा नगर के रीबै का पुत्र इत्तै, पिरातोनी बनायाह ३० गाश के नालों के पास रहनेहारा हिदै, अरावा का अबी- ३१ अल्बोन बहुरीमी अजमावेत शालबोनी एल्प्यहवा याशेन ३२ के वंश में से योनातान, रहाड़ी शम्मा अरारी शारार का ३३ पुत्र अहीआम, अहसबै का पुत्र एलीपेलेस माका देश ३४ के एक जन का पुत्र गीलौई अहीतोपेल का पुत्र एली-आम, कम्मेली हेसो अराबी पारै, सोबाई नातान ३५, ३६ का पुत्र यिगाल गादी बानी, अम्मोनी सेलेक बेरोती ३७ नहरै जो सरुयाह के पुत्र योआब का हथियार ढोने-हारा था, बेतेरी ईरा और गारेव, और हिर्ती ३८, ३९ ऊरिय्याह था सब मिलाकर सैंतीस थे ।

(दाऊद का अपनी प्रजा की गिनती लेना और इस पाप का दण्ड भोगना और पापमोचन पाना)

२४. और यहोवा का कोप इस्त्राएलियों पर फिर भड़का और उस ने दाऊद को उन की हानि के लिये यह कहकर उभारा कि इस्त्राएल और यहूदा की गिनती ले । सो राजा ने योआब सेनापति से जो उस के पास था कहा तू दान से बेशंका लौं रहनेहारे सारे इस्त्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो कि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है । योआब ने राजा से कहा प्रजा के लोग कितने ही क्यों न हों तेरा परमेश्वर यहोवा उन

को सौगुणा बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी  
 आंखों से देखने भी पाए पर हे मेरे प्रभु हे राजा यह  
 ४ बात तु क्यो चाहता है । तौभी राजा की आज्ञा योआब  
 और सेनापतियों पर प्रबल हुई सो योआब और सेना-  
 ५ पति राजा के सन्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती लेने  
 के बीच है और याजेर को बदे । तब वे गिलाद में और  
 ६ तहतीम्होदशी नाम देश में गये फिर दान्यान को गये  
 ७ और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुँचे । तब वे सोर नाम  
 इड गड और हिन्बियों और कनानियों के सब नगरो में  
 गये और उन्हों ने यहूदा देश की दक्खिन दिशा में  
 ८ बेशेबा में दौरा निपटाया । सो सारे देश में इधर उधर  
 घूम घूमकर वे नौ महीने और बीस दिन के बीते पर  
 ९ यरूशलेम को आये । तब योआब ने प्रजा की गिनती  
 का जोड़ राजा को सुनाया और तलवरिये योद्धा इस्रा-  
 एल के तो आठ लाख और यहूदा के पांच लाख ठहरे ॥  
 १० प्रजा की गिनती कराने के पीछे दाऊद का मन  
 छिद्र गया और दाऊद ने यहोवा से कहा यह जो काम  
 मैं ने किया सो बड़ा ही पाप है सो अब हे यहोवा अपने  
 दास का अधर्म दूर कर क्योकि मुझ से बड़ी मूर्खता  
 ११ हुई । बिहान को जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह  
 वचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था  
 १२ पहुँचा कि, जाकर दाऊद से कह कि यहोवा ये कहता  
 है कि मैं तुझ को तीन विपत्तियां दिखाता हूँ उन में से  
 १३ एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूँ । सो गाद ने  
 दाऊद के पास जाकर इस का समाचार दिया और उस  
 से पूछा क्या तेरे देश में सात बरस का अकाल पड़े  
 वा तीन महीने लों तरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और  
 तू उन से भागता रहे वा तेरे देश में तीन दिन लों मरी  
 फैली रहे अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजेनेहारे  
 १४ को क्या उत्तर दूँ । दाऊद ने गाद से कहा मैं बड़े संकट  
 में पड़ा हूँ हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योकि उस की  
 १५ दया बड़ी है पर मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूँ । सो यहोवा  
 इस्राएलियों में बिहान से लो ठहराये हुए समय तक मरा

फैलाये रहा और दान से लेकर बेशेबा लों रहनेहारी प्रजा  
 में से सत्तर हजार पुरुष मर गये । पर जब दूत ने १६  
 यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया  
 तब यहोवा वह विपत्ति डालकर पछुताया और प्रजा के  
 नाश करनेहारे दूत से कहा बस कर अब अपना हाथ  
 खींच । और यहोवा का दूत अरौना नाम एक यबूसी के  
 खलिहान के पास था । सो जब प्रजा का नाश करनेहारा १७  
 दूत दाऊद को देख पड़ा तब उस ने यहोवा से कहा  
 देख पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की  
 है पर इन मेड़ों ने क्या किया है सो तेरा हाथ धेरे और  
 मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो ॥

उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उस से १८  
 कहा जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की  
 एक वेदी बनवा । सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के १९  
 अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहाँ गया । तब २०  
 अरौना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी  
 ओर आते देखा सो अरौना ने निकलकर भूमि पर मुँहके  
 बल गिर राजा को दण्डवत् की । और अरौना ने कहा २१  
 मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यो पधारा है दाऊद  
 ने कहा तुझ से यह खलिहान मील लेने आया हूँ कि यहोवा  
 की एक वेदी बनवाऊँ इसलिये कि यह व्याधि प्रजा पर  
 से दूर की जाए । अरौना ने दाऊद से कहा मेरा प्रभु २२  
 राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाए देख  
 होमबलि के लिये तो बैल हैं और दांवने के हथियार और  
 बैलों का सामान ईधन का काम देंगे । यह सब अरौना  
 ने राजा को दे दिया । फिर अरौना ने राजा से कहा २३  
 तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ से प्रसन्न होए । राजा ने २४  
 अरौना से कहा ऐसा नहीं मैं ये वस्तुएं तुझ से अवश्य  
 दाम देकर लूंगा मैं अपने परमेश्वर यहोवा को संतमेंत  
 के होमबलि नहीं चढ़ाने का । सो दाऊद ने खलिहान  
 और बैलों को चांदी के पचास शेकेल में मील लिया ।  
 तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर २५  
 होमबलि और मेलबलि चढ़ाये और यहोवा ने देश के  
 निमित्त बिनती सुन ली सो वह व्याधि इस्राएल पर से  
 दूर हो गई ॥



# राजाओं का वृत्तान्त । पहिला भाग ।

(अदोनिव्याह की राजद्रीह की गोष्ठी  
और उस का तोषा जाना)

१ दाऊद राजा बूढ़ा बरन बहुत पुरनिया  
हुआ और यद्यपि उस को कपड़े

- २ ओढ़ाये जाते थे तौमी वह गर्माता न था । सो उस के कर्मचारियों ने उस से कहा हमारे प्रभु राजा के लिये कोई जवान कुंवारी खोजी जाए जो राजा के सन्मुख रहकर उस की टहलुइन हो और तेरे पास<sup>२</sup> लोटा करे कि
- ३ हमारा प्रभु राजा गर्माए । तब उन्हों ने सारे इस्त्राएली देश में सुन्दर कुंवारी खोजते खोजते अबीशग नाम एक
- ४ शूनेमिब को पाया और राजा के पास ले आये । वह कन्या बहुत ही सुन्दर थी और वह राजा की टहलुइन होकर उस की सेवा करती रही पर राजा ने उस से प्रसंग
- ५ न किया । सब हग्गीत का पुत्र अदोनिव्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूंगा सो उस ने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने की पचास पुरुष
- ६ रख लिये । उस के पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था कि तू ने ऐसा क्यों किया । वह बहुत रूपवान् था और अबशालीम के पीछे उस
- ७ का जन्म हुआ था । और उस ने सरूयाह के पुत्र योआब से और एब्द्यातार याजक से बातचीत की और
- ८ उन्हों ने उस के पीछे होकर उस की सहायता की । पर आदोक याजक यहोयादा का पुत्र बनायाह नातान नबी शिमी रेई और दाऊद के शरबीरों ने अदोनिव्याह का
- ९ साथ न दिया । और अदोनिव्याह ने जोहेलेत नाम पत्थर के पास जो एनरोगेल के निकट है मेड़ बैल और तैयार किये हुए पशु बलि किये और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला
- १० लिया । पर नातान नबी और बनायाह और शरबीरों को और अपने भाई सुलैमान को उस ने न बुलाया ।
- ११ तब नातान ने सुलैमान की माता बतशेबा से कहा क्या तू ने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनिव्याह राजा बन
- १२ बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता । सो अब आ मैं तुम्हें ऐसी सम्मति देता हूँ जिस से तू अपना

(१) मूल में तेरी गोद में ।

और अपने पुत्र सुलैमान क प्राण बचाए । त दाऊद १३  
राजा के पास जाकर उस से यों पूछ कि हे मेरे प्रभु हे १४  
राजा क्या तू मे किरिया खाकर अपनी दासी से नहीं १५  
कहा कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा और १६  
वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा, फिर अदोनिव्याह क्यों १७  
राजा बन बैठा है । और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें १८  
करती रहेगी तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों को पुष्ट १९  
करूंगा । तब बतशेबा राजा के पास कोठरी में गई २०  
राजा तो बहुत बूढ़ा था और उस की सेवा टहल २१  
शूनेमिन अबीशग करती थी । सो बतशेबा ने झुककर २२  
राजा को दरइवत् की और राजा ने पूछा तू क्या चाहती २३  
है । उस ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु तू ने तो अपने २४  
परमेश्वर यहोवा की किरिया खाकर अपनी दासी से कहा २५  
था कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा और वह २६  
मेरी गद्दी पर विराजेगा । अब देख अदोनिव्याह राजा २७  
बन बैठा है और अब लो मेरा प्रभु राजा इसे नहीं २८  
जानता । और उस ने बहुत से बैल तैयार किये पशु और २९  
मेड़ बलि की और सब राजकुमारों को और एब्द्यातार ३०  
याजक और योआब सेनापति को बुलाया है पर तेरे ३१  
दास सुलैमान को नहीं बुलाया । और हे मेरे प्रभु हे राजा ३२  
सब इस्त्राएली तुम्हें ताक रहे हैं कि तू उन से कहे कि ३३  
हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उस के पीछे कौन बैठेगा । ३४  
नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग ३५  
सोएगा तब मैं और मेरा पुत्र सुलैमान दोनों अपराधी ३६  
गिने जाएंगे । यों बतशेबा राजा से बातें कर रही ३७  
थी कि नातान नबी भी आया । और राजा से ३८  
कहा गया कि नातान नबी हाजिर है तब वह राजा ३९  
के सम्मुख आया और मुंह के बल गिरके राजा ४०  
को दरइवत् की । और नातान कहने लगा हे मेरे ४१  
प्रभु हे राजा क्या तू ने कहा है कि अदोनिव्याह ४२  
मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा । ४३  
देख उस ने आज नीचे जाकर बहुत से बैल ४४  
तैयार किये हुए पशु और मेड़ बलि की हैं और सब ४५  
राजकुमारों और सेनापतियों को और एब्द्यातार याजक ४६  
को भी बुला लिया है और वे उस के सम्मुख खाते पीते ४७  
हुए कह रहे हैं कि अदोनिव्याह राजा जाता रहे । पर ४८

मुझ तेरे दास को और सादेक याजक और यहोयादा के पुत्र बनायाह और तेरे दास सुलैमान को उस ने नहीं  
 २७ बुलाया । क्या वह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ । तू  
 ने तो अपने दास को यह न बताया है कि प्रभु राजा की  
 २८ गद्दी पर कौन उस के पीछे बिराजेगा । दाऊद राजा ने  
 कहा बतशेबा को मेरे पास बुला लाओ तब वह राजा के  
 २९ पास आकर उस के साम्हने खड़ी हुई । राजा ने किरिया  
 खाकर कहा यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से  
 ३० बचाता आया है उस के जीवन की सोह, जैसा मैं ने  
 तुझ से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की किरिया खाकर  
 कहा था कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा और  
 वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर बिराजेगा वैसा ही मैं निश्चय  
 ३१ आज के दिन करूंगा । तब बतशेबा ने भूमि पर मुँहके  
 बल गिर राजा को दण्डवत् करके कहा मेरा प्रभु राजा  
 ३२ दाऊद सदा लो जीता रहे । तब दाऊद राजा ने कहा  
 मेरे पास सादेक याजक नातान नबी और यहोयादा के  
 पुत्र बनायाह को बुला लाओ सो वे राजा के साम्हने  
 ३३ आये । राजा ने उन से कहा अपने प्रभु के कर्मचारियों  
 के साथ लेकर मेरे पुत्र सुलैमान को मेरे निज खच्चर  
 ३४ पर चढाओ और गीहोन को ले जाओ । और वहाँ  
 सादेक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा  
 होने को उस का अभिषेक करे तब तुम सब नरसिंगा  
 ३५ फूँककर कहना राजा सुलैमान जीता रहे । और तुम उस  
 के पीछे पीछे हथ आना और वह अकर मेरे सिंहासन  
 पर बिराजे क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा और  
 उसी को मैं ने इस्राएल और यहूदा का प्रधान होने को  
 ३६ ठहराया है । तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा  
 आमेन मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही  
 ३७ कहे । जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा उसी  
 रीति वह सुलैमान के भी संग रहे और उस का राज्य  
 मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए ।  
 ३८ सो सादेक याजक और नातान नबी और यहोयादा का  
 पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों को संग लिये हुए  
 नीचे गये और सुलैमान को राजा दाऊद के खच्चर पर  
 ३९ चढाकर गीहोन को ले चले । तब सादेक याजक ने  
 यहोवा के तम्बू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और  
 सुलैमान का राज्याभिषेक किया और वे नरसिंगे फूँकने  
 लगे और सब लोग बोल उठे राजा सुलैमान जीता रहे ।  
 ४० तब सब लोग उस के पीछे पीछे बांसुली बजाते और  
 इतना बड़ा आनन्द करते हुए ऊपर गये कि उन की  
 ४१ ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी । जब अदोनिय्याह और

(१) मूल में फूँक गई ।

उस के सब नेवतहरी ला चुके थे तब वह ध्वनि उन  
 को सुनाई पड़ी और योआब ने नरसिंगे का शब्द सुन  
 कर पूछा नगर में हीरे का शब्द क्यों होता है । वह यह  
 ४२ कहता ही था कि एड्यातार याजक का पुत्र योनातान  
 आया और अदोनिय्याह ने उस से कहा भीतर आ तू तो  
 भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा ।  
 योनातान ने अदोनिय्याह से कहा सचमुच हमारे प्रभु  
 ४३ राजा दाऊद ने सुलैमान को राजा बना दिया । और  
 ४४ राजा ने सादेक याजक नातान नबी और यहोयादा के  
 पुत्र बनायाह और करेतियों और पलेतियों को उस के  
 संग भेज दिया और उन्होंने उस को राजा के खच्चर पर  
 चढाया । और सादेक याजक और नातान नबी ने  
 ४५ गीहोन में उस का राज्याभिषेक किया है और वे वहाँ से  
 ऐसा आनन्द करते हुए ऊपर गये हैं कि नगर में हीरा  
 मन्वा जो शब्द तुम को सुन पड़ा सो वही है । और  
 ४६ सुलैमान राजगद्दी पर बिराज भी रहा है । फिर राजा  
 ४७ के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को यह कहकर  
 धन्य कहने आये कि तेरा परमेश्वर सुलैमान का नाम  
 तेरे नाम से भी बड़ा करे और उस का राज्य तेरे राज्य  
 से भी अधिक बढ़ाए और राजा ने अपने बलंग पर  
 दण्डवत् की । फिर राजा ने यह भी कहा कि इस्राएल  
 ४८ का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिस ने आज मेरे देखते  
 एक को मेरी गद्दी पर बिराजमान किया है । तब  
 ४९ जितने नेवतहरी अदोनिय्याह के संग थे सो सब थरथरा  
 गये और उठकर अपना अपना मार्ग लिया । और अदो-  
 ५० नियाह सुलैमान से डर कर उठा और जाकर वेदी के  
 सींगों को पकड़ा । तब सुलैमान को यह समाचार मिला  
 ५१ कि अदोनिय्याह सुलैमान राजा से ऐसा डर गया है  
 कि उस ने वेदी के सींगों को यह कहकर पकड़ लिया है  
 कि आज राजा सुलैमान किरिया खाए कि अपने दास  
 को तलवार से न मार डालूंगा । सुलैमान ने कहा यदि  
 ५२ वह भलमनसी दिखाए तो उस का एक बाल भी भूमि  
 पर गिरने न पाएगा पर यदि उस में दुष्टता पाई जाए  
 तो वह मारा जाएगा । तब राजा सुलैमान ने कितनों को  
 ५३ भेज दिया जो उस को वेदी के पास से उतार ले आये  
 तब उस ने आकर राजा सुलैमान को दण्डवत् की और  
 सुलैमान ने उस से कहा अपने घर चला जा ॥

(दाऊद की मृत्यु और सुलैमान के राज्य का आरम्भ)

२. जब दाऊद के मरने का समय निकट  
 आया तब उस ने अपने पुत्र सुलैमान  
 से कहा कि, मैं लोक की रीति पर कूच करनेवाला हूँ सो १

(२) मूल में अच्छा ।

३ वृहिसाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। और जो कुछ तेरे पर-  
मेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उस की रक्षा करके उस के  
मार्गों पर चला कर और जैसा मूसा की व्यवस्था में  
लिखा है वैसा ही उस की विधियों आज्ञाओं और नियमों  
और चिंतनियों को मानता रह जिस से जो कुछ तू करे  
४ और जिधर तू फिरे उस में तू बुद्धि से काम करे, और  
जिस से यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उस ने मेरे  
विषय कहा था कि यदि तेरे सन्तान अपनी बाल के  
विषय ऐसे सावधान रहें कि अपने सारे हृदय और सारे  
जीव से सब्बाई के साथ अपने को मेरे सन्मुख जानकर  
चलते रहें तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजनेहार  
५ की तेरे कुल में घटी कभी न होगी। फिर तू आप  
जानता है कि सरुयाह के पुत्र योआब ने मुझ से क्या  
क्या किया अर्थात् उस ने मेरे के पुत्र अब्नेर और  
येतेर के पुत्र अमासा इस्राएल के देा सेनापतियों से  
क्या किया उस ने उन दोनों को घात किया और मेल  
के समय युद्ध का लोहू बहाकर उस से अपनी कमर का  
६ फेंटा और अपने पांवों की जूतियां भिगो दीं। सो तू  
अपनी बुद्धि के अनुसार करके उस पक्के बालवाले को  
७ अधोलोक में शांति से उतरने न देना। फिर गिलादी  
बर्जिल्लै के पुत्रों पर कृपा रखना और वे तेरी मेज पर  
खानेहारों में रहें क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम  
के साम्हने से भागा जाता था तब उन्हों ने मेरे पास  
८ आकर बैसा ही किया था। फिर सुन तेरे पास बिन्यामीनी  
गैरा का पुत्र बहुरीमी शिमी रहता है जिस दिन मैं  
महनैम को जाता था उस दिन उस ने मुझे कड़ाई से  
कोसा था पर जब वह मेरी भेंट के लिये यदन को आया  
तब मैं ने उस से यहोवा की यह किरिया खाई कि मैं  
९ तुझे तलवार से न मार डालूंगा। पर अब तू इसे निर्दोष  
न ठहराना तू तो बुद्धिमान् पुरुष है सो तुम्हें मालूम  
होगा कि उस से क्या करना चाहिये और उस पक्के  
बालवाले का लोहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार  
१० देना। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सोया और  
११ दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इस्राएल पर  
चालीस बरस राज्य किया सात बरस तो उस ने हेबोन  
में और तैंतीस बरस यरूशलेम में राज्य किया था ॥

१२ तब सुलैमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर  
१३ विराजा और उस का राज्य बहुत दृढ़ हुआ। और  
इगीत का पुत्र अदोनियाह सुलैमान की माता बतशेबा  
के पास आया और बतशेबा ने पूछा क्या तू मित्रभाव  
१४ से आता है उस ने उत्तर दिया हा मित्रभाव से। फिर

(१) मूल में मेरे साम्हने चलते रहें।

वह कहने लगा मुझे तुझ से एक बात कहनी है उस ने  
कहा कह। उस ने कहा तुझे तो मालूम है कि राज्य १५  
मेरा हो गया था और सारे इस्राएली मेरी ओर रुख किये  
ये कि मैं राज्य करूं पर अब राज्य पलटकर मेरे भाई का  
हो गया है क्योंकि वह यहोवा की ओर से उस को मिला  
है। सो अब मैं तुझ से एक बात मांगता हूं मुझ से नाह १६  
न करना उस ने कहा कहे जा। उस ने कहा राजा सुलै- १७  
मान तुझ से नाह न करेगा सो उस से कह कि वह  
मुझे शूनेमिन अबीशग को ब्याह दे। बतशेबा ने कहा १८  
अच्छा मैं तेरे लिये राजा से कहूंगी। सो बतशेबा अदे- १९  
निय्याह के लिए राजा सुलैमान से बातचीत करने के  
उस के पास गई और राजा उस की भेंट के लिये उठा  
और उसे दरदवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया  
फिर राजा ने अपनी माता के लिये एक सिंहासन धरा  
दिया और वह उस की दहिनी ओर बैठ गई। तब वह  
कहने लगी मैं तुझ से एक छोटी सी बात मांगती हूं सो २०  
मुझ से नाह न करना राजा ने कहा हे माता मांग मैं तुझ  
से नाह न करूंगा। उस ने कहा वह सुनेमिन अबीशग २१  
तेरे भाई अदोनियाह को ब्याह दी जाए। राजा सुलैमान २२  
ने अपनी माता को उत्तर दिया तू अदोनियाह के लिये  
शूनेमिन अबीशग ही को क्यों मांगती है उस के लिये  
राज्य भी मांग क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है और उसी  
के लिये क्या एब्यातार याजक और सरुयाह के पुत्र  
योआब के लिये भी मांग। और राजा सुलैमान ने यहोवा २३  
की किरिया खाकर कहा यदि अदोनियाह ने यह बात  
अपने प्राण पर खेलकर न कही हो तो परमेश्वर मुझ से  
वैसा ही बरन उस से भी अधिक करे। अब यहोवा जिस २४  
ने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद को राजगद्दी  
पर विराजमान किया और अपने वचन के अनुसार मेरा  
घर बसाया है उस के जीवन की सोह आज ही अदोनियाह  
मार डाला जाएगा। और राजा सुलैमान ने यहोवादा २५  
के पुत्र बनायाह को मेज दिया और उस ने जाकर उस को  
ऐसा मारा कि वह मर गया। और एब्यातार याजक से राजा २६  
ने कहा अनातोत में अपनी भूमि को जा क्योंकि तू भी प्राण  
दरद के योग्य है आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा  
क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के साम्हने प्रभु यहोवा का संदूक  
उठाया करता था और उन सब दुःखों में जो मेरे पिता पर  
पड़े थे तू भी दुःखी था। और सुलैमान ने एब्यातार को २७  
यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया इसलिये  
कि जो वचन यहोवा ने एली के बंरा के विषय शील्लो में  
कहा था सो पूरा हो जाए। और इस का समाचार २८  
योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो न

फिरा था पर अदोनिव्याह के पीछे फिरा था । सो योआब  
 यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के संभों को पकड़  
 २९ लिया । और राजा सुलैमान को यह समाचार मिला कि  
 योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के  
 ३० कंधे पर बैठा हुआ है और वह वेदी के पुत्र बनायाह को यह  
 याह ने यहोवा के तंबू पास जाकर उस से कहा राजा की  
 यह आज्ञा है कि निकल आ उस ने कहा नहीं मैं यहीं  
 मर जाऊंगा सो बनायाह ने लौटकर यह सन्देश राजा  
 ३१ को दिया कि योआब ने मुझे यों ही उत्तर दिया । राजा  
 ने उस से कहा उस के कहने के अनुसार उस को मार  
 डाल और उसे मिट्टी दे ऐसा करके निर्दोषों का जो खून  
 योआब ने किया है उस का दोष तू मुझ पर से और मेरे  
 ३२ पिता के घराने पर से दूर करेगा । और यहोवा उस के सिर  
 वह खून लौटा देगा उस ने तो मेरे पिता दाऊद के बिन  
 जाने अपने से अधिक धर्मों और भले दो पुरुषों पर अर्थात्  
 इस्राएल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अन्नोर और यहूदा  
 के प्रधान सेनापति येतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उन  
 ३३ को तलवार से मार डाला था । यों योआब के सिर पर  
 और उस की सन्तान के सिर पर खून सदा लों रहेगा पर  
 दाऊद और उस के वंश और उस के घराने और उस के राज्य  
 ३४ पर यहोवा की ओर से शांति सदा लों रहेगी । तब  
 यहोवादा के पुत्र बनायाह ने जाकर योआब को मार  
 डाला और उस को जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी  
 ३५ गई । तब राजा ने उस के स्थान पर यहोवादा के पुत्र  
 बनायाह को प्रधान सेनापति ठहराया और एब्यातार के  
 ३६ स्थान पर सादोक याजक को ठहराया । और राजा ने  
 शिमी को बुलवा भेजा और उस से कहा तू यरूशलेम  
 में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से  
 ३७ बाहर कहीं न जाना । तू निश्चय जान रख कि जिस दिन  
 तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे उसी दिन तू  
 निःसन्देश मार डाला जाएगा और तेरा लोहू तेरे ही सिर  
 ३८ पर पड़ेगा । शिमी ने राजा से कहा बात अच्छी है जैसा  
 मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा सो  
 ३९ शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा । पर तीन बरस के  
 बीते पर शिमी के दो दास गत नगर के राजा माका के  
 पुत्र आकीश के पास भाग गये और शिमी को यह  
 ४० समाचार मिला कि तेरे दास गत में हैं । तब शिमी  
 उठकर अपने गदहे पर काठी कसकर अपने दास दूँडने के  
 लिये गत को आकीश के पास गया और अपने दासों को  
 ४१ गत से ले आया । जब सुलैमान राजा को इस का

(१) मूल में उस की राजगद्दी पर ।

समाचार मिला कि शिमी यरूशलेम से गत को गया  
 और फिर लौट आया है तब उस ने शिमी को बुलवा ४२  
 भेजा और उस से कहा क्या मैं ने तुम्हें यहोवा की  
 किरिया न खिलाई थी और तुझ से चिताकर न कहा  
 था कि यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर  
 कहीं चला जाए उसी दिन तू निःसन्देश मार डाला  
 जाएगा और क्या तू ने मुझ से न कहा था कि जो बात  
 मैं ने सुनी सो अच्छी है । फिर तू ने यहोवा की किरिया ४३  
 और मेरी हठ आज्ञा क्यों नहीं मानी । और राजा ने ४४  
 शिमी से कहा कि तू आप ही अपने मन में उस सारी  
 दुष्टता को जानता है जो तू ने मेरे पिता दाऊद से की  
 थी सो यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा । पर ४५  
 राजा सुलैमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा  
 के साभूने सदा लों हट रहेगा । तब राजा ने यहोवादा ४६  
 के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी और उस ने बाहर जाकर  
 उस को ऐसा मारा कि वह भी मर गया । और सुलैमान  
 के हाथ में राज्य हट ही गया ॥

### ३. फिर राजा सुलैमान मिस्र के राजा

फिरीन की बेटी ब्याह कर उस  
 का दामाद हो गया और उस को दाऊदपुर में ले आकर  
 जब लों अपना भवन और यहोवा का भवन और  
 यरूशलेम के चारों ओर शहरपनाह न बनवा चुका  
 तब लों उस को वहीं रक्खा । क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊँचे २  
 स्थानों पर बलि चढ़ाते थे उन दिनों तक यहोवा के नाम  
 का कोई भवन न बना था । और सुलैमान यहोवा से ३  
 प्रेम रखता और अपने पिता दाऊद की विधियों पर  
 चलता तो रहा पर वह ऊँचे स्थानों पर बलि चढ़ाया  
 और धूप जलाया करता था ॥

और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि ४  
 मुख्य ऊँचा स्थान वही था सो वहाँ को वेदी पर सुलैमान  
 ने एक हजार होमबलि चढ़ाये । गिबोन में यहोवा ने ५  
 रात को स्वप्न के द्वारा सुलैमान को दर्शन देकर कहा जो  
 कुछ तू चाहे कि मैं तुम्हें दूँ सो मांग । सुलैमान ने कहा ६  
 तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी कसूर्य करता  
 रहा इस कारण से कि वह अपने को तेरे सन्मुख  
 जानकर तेरे साथ सबाई और धर्म और मन की सीधायें  
 से चलता रहा और तू ने यहाँ तक उस पर कसूर्य  
 की थी कि उसे उस की गद्दी पर बिराजनेहारा एक  
 पुत्र दिया है जैसा कि आज है । और अब हे मेरे परमे- ७  
 श्वर यहोवा तू ने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के  
 स्थान पर राजा किया है पर मैं छोटा लड़का सा हूँ जो  
 भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता । फिर तेरा दास ८

तेरी सुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के बीच है जिन  
 ९ की गिनती बहुतायत के मारे नहीं होती। तो अपने  
 दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिये समझने  
 की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे का विवेक कर सकूँ  
 १० कर सकूँ। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलैमान ने  
 ११ ऐसा वर मांगा। तो परमेश्वर ने उस से कहा इस-  
 लिये कि तू ने यह वर मांगा है और न तो दीर्घायु न  
 धन न अपने शत्रुओं का नाश मांगा पर समझने के  
 १२ विवेक का वर मांगा है सुन मैं तेरे वचन के अनुसार  
 करता हूँ मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ  
 यहाँ लो कि तेरे समान न तो तुझ से पहिले कोई कभी  
 १३ हुआ और न तेरे पीछे कोई होगा। फिर जो तू ने नहीं  
 मांगा अर्थात् धन और महिमा सो भी मैं तुझे यहाँ लो  
 देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न  
 १४ होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे  
 मांगों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को  
 १५ मानता रहे तो मैं तेरी आयु बढ़ाऊँगा। तब सुलैमान  
 जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न हुआ फिर वह यरू-  
 शलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के  
 साम्हने खड़ा होकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाये  
 और अपने सब कर्मचारियों के लिये जेवनार की ॥  
 १६ उस समय दो बेशपाएँ राजा के पास आकर उसके  
 १७ सन्मुख खड़ी हुईं। उन में से एक स्त्री कहने लगी हे  
 मेरे प्रभु मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं  
 १८ और इस के संग घर में रहते मैं लड़का जनी। फिर  
 मेरे जनने के तीन दिन बीते पर यह स्त्री भी लड़का  
 जनी हम तो संग ही संग थीं हम दोनों को छोड़कर घर  
 १९ में और कोई न था। और रात में इस स्त्री का बालक  
 २० इस के नीचे दबकर मर गया। तब इस ने आधी रात  
 को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी तब मेरा लड़का  
 मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रक्खा और अपना  
 २१ मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को  
 जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा  
 पाया पर भोर को मैं ने चित्त लगाकर यह देखा कि जो  
 २२ पुत्र मैं जनी थी सो यह नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा  
 नहीं जीता पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है पर वह  
 कहती रही नहीं मरा हुआ तेरा पुत्र और जीता मेरा  
 २३ पुत्र है यों वे राजा के साम्हने बातें करती रहीं। राजा  
 ने कहा एक तो कहती है जो जीता है सोई मेरा पुत्र  
 है और मरा तेरा पुत्र है और दूसरी कहती है नहीं जो

(१) मूल में सुननक्षरा मत्त ।

मरा है सोई तेरा पुत्र है और जो जीता है वह मेरा पुत्र  
 है। फिर राजा ने कहा मेरे पास तलवार ले आओ सो  
 २४ एक तलवार राजा के साम्हने लाई गई। तब राजा २५  
 बोला जीते हुए बालक को दो टुकड़े करके आधा इस  
 को आधा उस को दो। तब जीते हुए बालक की माता २६  
 का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उस ने  
 राजा से कहा हे मेरे प्रभु जीता हुआ बालक उसी को दे  
 पर उस को किसी भाँति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा  
 वह न तो मेरा ही न तेरा वह दो टुकड़े किया जाए।  
 तब राजा ने कहा पहिली को जीता हुआ बालक दो २७  
 किसी भाँति उस को न मारो क्योंकि उस की माता वही  
 है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उस का समाचार २८  
 सारे इस्राएल को मिला और उन्हों ने राजा का भय  
 माना क्योंकि उन्हों ने यह देखा कि उस के मन में  
 न्याय करने को परमेश्वर की बुद्धि है ॥

(सुलैमान का राजप्रबन्ध और माहात्म्य)

## ४. राजा सुलैमान तो सारे इस्राएल के

ऊपर राजा हुआ था। और उस २  
 के हाकिम ये थे अर्थात् सादोक का पुत्र अजर्थाह याजक  
 शीशा के पुत्र एलीहोरेप और अहिय्याह प्रधान मन्त्री  
 थे। अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक ३  
 था। फिर यहोशादा का पुत्र बनायाह प्रधान सेनापति था ४  
 और सादोक और एब्यातार याजक थे। और नातान का ५  
 पुत्र अजर्थाह भण्डारियों पर था और नातान का पुत्र  
 जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था। और अही- ६  
 शार राजपरिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अदी-  
 नीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। और सुलैमान के ७  
 बारह भण्डारी थे जो सारे इस्राएलियों के अधिकारी  
 होकर राजा और उस के घराने के लिये भोजन का  
 प्रबन्ध करते थे एक एक पुरुष बरस दिन में अपने  
 अपने महाने में प्रबन्ध करता था। और उन के नाम ये ८  
 थे अर्थात् एप्रैम के पहाड़ी देश में बेन्दूर। और माकस ९  
 शाल्थीम बेतशेमेश और एलोनबेथानान में बेन्देकेर था।  
 अरुबोत में बेन्देसेद जिस के अधिकार में सोको और १०  
 हेपर का सारा देश था। दोर के सारे ऊँचे देश में बेन- ११  
 बीनादाब जिस की स्त्री सुलैमान की बेटी तापत थी।  
 और अहीलूद का पुत्र बाना जिस के अधिकार में तानाक १२  
 मगिहो और बेतशान का वह सारा देश था जो सारतान  
 के पास और यिज्जेल के नीचे और पेतशान से ले  
 आबेलमहोला लो अर्थात् योकमाम की परती और लो १३  
 है। और गिलाद के रामोत में बेनगेबर था इस के  
 अधिकार में मनशौई याईर के गिलाद के गांव थे अर्थात्

इसी के अधिकार में बाशान के अर्गोब का देश था जिस में शहरपनाह और पीतल के बड़ेवाले साठ बड़े बड़े नगर थे । और इहो के पुत्र अहीनादाब के हाथ में महनैम था ।

१५ नसाली में अहीमास था जिस ने सुलैमान की बासमत नाम बेटी को ब्याह लिया था । और आशोर और आलोल में हुशै का पुत्र बाना, इस्साकार में पासह का पुत्र यहोशापात, और विन्यामीन में एला का पुत्र शिमी था ।

१९ उरी का पुत्र गेबेर गिलाद में अर्थात् एमेरियो के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग के देश में था इस सारे देश में वही भण्डारी था । यहूदा और इस्राएल के लोग बहुत थे वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनन्द करते रहे ॥

२१ सुलैमान तो महानद से ले पलिश्रियों के देश और मिश्र के सिवाने लों के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और उन के लोग सुलैमान के जीवन भर भेंट लाते और उस के अधीन रहते थे । और सुलैमान की एक दिन की रसोई में शतना उठता था, अर्थात् तीस कोर मैदा साठ कोर आटा, दस तैयार किये हुए बैल और चराइयों में से बीस बैल और सौ भेड़ बकरी और इन को छोड़ हरिन चिकारे यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी । क्योंकि महानद के इस पार के सारे देश पर अर्थात् तिप्सह से ले अज्जा लों जितने राजा थे उन सभी पर सुलैमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहनेहारों से मेल रखता था । और दान से बेशेया लों के सारे यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलैमान के जीवन भर निडर रहते थे । फिर उस के रथ के घोड़ों के लिये सुलैमान के चात्तीस हजार थान थे और उस के बारह हजार सवार थे । और वे भण्डारी अपने अपने महीने में राजा सुलैमान के लिये और जितने उस की मेज पर आते थे उन सभी के लिये भोजन का प्रबन्ध करते थे किसी वस्तु की घटी होने न आती थी । और घोड़ों और बेग चलनेहारों के लिये जब और पुआल जहाँ प्रयोजन पड़ता था वहाँ आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुँचाया करता था ॥

२९ और परमेश्वर ने सुलैमान को बुद्धि दी और उस की समझ बहुत ही बढ़ाई और उस के हृदय में समुद्र-तीर की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनित गुण<sup>१</sup> दिये ।

३० और सुलैमान की बुद्धि पूरब देश के सब निवासियों और

३१ मिश्रियों की भी सारी बुद्धि से बढ़कर थी । वह तो और सब मनुष्यों से बरन एतान एज्राही और हेमान और माहोस के पुत्र कलकील और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान

(१) मूल में हृदय की चौड़ाई ।

था और उस की कीर्त्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई । उस ने तीन हजार नीतिबचन कहे और उस के एक हजार पांच गीत भी हैं । फिर उस ने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं पक्षियों रेंगनेहारों जन्तुओं और मछलियों की चर्चा की । और देश देश के लोग पृथिवी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलैमान की बुद्धि की कीर्त्ति सुनी थी उस की बुद्धि की बातें सुनने को आते थे ॥

(मन्दिर के बनने की तैयारी)

५. और सोर नगर के हीराम राजा ने अपने दूत सुलैमान के पास भेजे

क्योंकि उस ने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है और दाऊद के जीवन भर हीराम उस का मित्र बना रहा । और सुलैमान ने हीराम के पास यों कहला भेजा कि, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिये न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब लों बन्ना रहा जब लों यहोवा ने उस के शत्रुओं को उस के पांव तले न कर दिया । पर अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विभाम दिया और न तो कोई विरोधी है न कुछ विपत्ति देख पड़ती है । सो मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने को ठाना है अर्थात् उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गही पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा । सो अब तू मेरे लिये लबानोन पर से देवदारु काटने की आज्ञा दे और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे और जो कुछ मजूरी तू उठराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिये दूंगा तुझे मा.ूम तो है कि सीदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई नहीं जानता । सुलैमान की ये बातें सुनकर हीराम बहुत आनन्दित हुआ और कहा आज यहोवा धन्य है जिस ने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिये एक बुद्धिमान पुत्र दिया है । सो हीराम ने सुलैमान के पास यों कहला भेजा कि जो तू ने मेरे पास कहला भेजा सो मेरी समझ में आ गया देवदारु और सनौवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे सो मैं करूंगा । मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र लों पहुँचाएंगे फिर मैं उन के बड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिये उठराए वहाँ समुद्र के मार्ग से उन को पहुँचवा दूंगा वहाँ मैं उन को खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना और तू मेरे

परिवार के लिये भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी  
 १० करना । सो हीराम सुलैमान की सारी इच्छा के अनुसार  
 उस को देवदारु और सनौबर की लकड़ी देने लगा ।  
 ११ और सुलैमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिये  
 उसे बीस हजार कोर गेहूँ और बीस कोर पेरा हुआ तेल  
 दिया यों सुलैमान हीराम को बरस बरस दिया करता  
 १२ था । और यहोवा ने सुलैमान को अपने वचन के  
 अनुसार बुद्धि दी और हीराम और सुलैमान के बीच मेल  
 रहा बरन उन दोनों ने आपस में बाचा भी बांधी ॥  
 १३ और राजा सुलैमान ने सारे इस्त्राएल में से तीस  
 १४ हजार पुरुष बेगारी लगाये, और उन्हें लबानोन पहाड़  
 पर पारी पारी करके महीने महीने दस हजार भेज दिया  
 एक महीना तो वे लबानोन पर और दो महीने घर पर  
 १५ रहा करते थे और बेगारियों के ऊपर अदोनीराम ठहराया  
 गया । और सुलैमान के सत्तर हजार बोझ ढोनेहारे और  
 पहाड़ पर अस्सी हजार वृद्ध काटनेहारे और पत्थर  
 १६ निकालनेहारे थे । इन को छोड़ सुलैमान के तीन हजार  
 १७ तीन सौ मुखिये थे जो काम करनेहारों के ऊपर थे । फिर  
 राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिये  
 खोदकर निकाले गये कि भवन की नेव गढ़े हुए पत्थरों  
 १८ से ढाली जाए । और सुलैमान के कारीगरों और हीराम  
 के कारीगरों और गबालियों ने उन को गढ़ा और भवन  
 के बनाने के लिये लकड़ी और पत्थर तैयार किये ॥

(मन्दिर आदि की बनावट)

## ६. इस्त्राएलियों के मिस्र देश से निकलने

के चार सौ अस्तीवें बरस  
 जो सुलैमान के इस्त्राएल पर राज्य करने का चौथा बरस  
 था उस जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन  
 २ बनाने लगा । और जो भवन राजा सुलैमान ने यहोवा  
 के लिये बनाया उस की लंबाई साठ हाथ चौड़ाई बीस  
 ३ हाथ और ऊंचाई तीस हाथ की थी । और भवन के  
 मन्दिर के साम्हने के ओसारे की लंबाई बीस हाथ की  
 अर्थात् भवन की चौड़ाई के बराबर थी और ओसारे की  
 चौड़ाई जो भवन के साम्हने थी सो दस हाथ की थी ।  
 ४ फिर उस ने भवन में स्थिर भित्तमिलीदार खिड़कियां  
 ५ बनाईं । और उस ने भवन के आसपास की भीतों से  
 सटे हुए महलों को बनाया अर्थात् भवन के मन्दिर  
 और परमपवित्र स्थान दोनों भीतों के आसपास उस ने  
 ६ कोठरियां बनाईं । सब से नीचेवाली महल की चौड़ाई  
 पांच हाथ और बीचवाली की छः हाथ और ऊपरवाली  
 की सात हाथ की हुई क्योंकि उस ने भवन के आसपास  
 भीत को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया इसलिये कि

कड़ियां भवन की भीतों में घुसेरी न जाएं । और बनते ७  
 समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले  
 आने से पहिले गढ़कर ठीक किये गये थे और भवन के  
 बनते समय द्यौड़े बसली वा और किसी प्रकार के लोखर  
 का शब्द कभी सुनाई न पड़ा । बाहर की बीचवाली ८  
 कोठरियों का द्वार भवन की दहिनी अलंग में था और  
 लोग चक्करदार सीढियों पर होकर बीचवाली कोठरियों  
 में जाते और उन से ऊपरवाली कोठरियों पर जाते थे ।  
 उस ने भवन को बनाकर पूरा किया और उस की छत ९  
 देवदारु की कड़ियों और तखतों से बनी । और सारे १०  
 भवन से लगी हुई जो महलों उस ने बनाईं सो पांच  
 पांच हाथ ऊंची थीं और वे देवदारु की कड़ियों के द्वारा  
 भवन से मिलाई गई थीं ॥

तब यहोवा का यह वचन सुलैमान के पास पहुंचा ११  
 कि, यह भवन तो तू बना रहा है यदि तू मेरी विधियों १२  
 पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरा सब  
 आज्ञाओं पर चलता हुआ उन्हें मानेगा तो जो वचन मैं  
 ने तेरे विषय तेरे पिता दाऊद को दिया उस को मैं पूरा  
 करूंगा । और मैं इस्त्राएलियों के बीच बास करूंगा और १३  
 अपनी इस्त्राएली प्रजा को न त्यागूंगा ॥

सो सुलैमान ने भवन को बनाकर पूरा किया । १४  
 और उस ने भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारु की १५  
 तखताबंदी की उस ने भवन के फरश से छत लों भीतों  
 में भीतरवार लकड़ी की तखताबंदी की और भवन के  
 फरस को उस ने सनौबर के तखतों से बनाया । और १६  
 भवन की पिछली अलंग में भी उस ने बीस हाथ की  
 दूरी पर फरश से ले भीतों के ऊपर तक देवदारु की  
 तखताबंदी की इस प्रकार उस ने परमपवित्र स्थान के  
 लिये भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई । और उस के १७  
 साम्हने की भवन अर्थात् मन्दिर की लम्बाई चालीस हाथ  
 की थी । और भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारु १८  
 की लकड़ी की तखताबंदी थी और उस में इन्द्रायन  
 और खिले हुए फूल खुदे थे देवदारु ही देवदारु था  
 पत्थर कुछ न देख पड़ता था । भवन के भीतर उस ने १९  
 एक भीतरी कोठरी यहोवा की वाचा का संवूक रखने के  
 लिये तैयार की । और उस भीतरी कोठरी की लम्बाई २०  
 चौड़ाई और ऊंचाई बीस बीस हाथ की थी और उस ने  
 उस पर चोखा सोना मढ़ाया और वेदी की तखताबंदी  
 देवदारु से की । फिर सुलैमान ने भवन को भीतर २१  
 भीतर चोखे सोने से मढ़ाया और भीतरी कोठरी के  
 साम्हने सोने की संकलें लगाईं और उस को भी सोने  
 से मढ़ाया । और उस ने सारे भवन को सोने से मढ़ाकर २२

उस का सारा काम निपट' दिया और भीतरी कोठरी की  
 २३ सारी बेदी को भी उस ने सोने से मढ़ाया । और भीतरी  
 कोठरी में उस ने दस दस हाथ ऊंचे जलपाई की लकड़ी  
 २४ के दो करुब बना रखे । एक करुब का एक पंख पांच  
 हाथ का था और उस का दूसरा पंख पांच हाथ का था  
 एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे लों दस हाथ थे ।  
 २५ और दूसरा करुब भी दस हाथ का था दोनों करुब एक  
 २६ ही नाम और एक ही आकार के थे । एक करुब की  
 ऊंचाई दस हाथ की और दूसरे की भी इतनी ही थी ।  
 २७ और उस ने करुबों को भीतरवाले स्थान में धरवा दिया  
 और करुबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करुब का एक  
 पंख एक भीत से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी भीत  
 से लगा हुआ था फिर उन के दूसरे दो पंख भवन के  
 २८ बीच एक दूसरे से लगे हुए थे । और करुबों को उस ने  
 २९ सोने से मढ़ाया । और उस ने भवन की भीतों में बाहर  
 और भीतर चारों ओर करुब खजूर और खिले हुए फूल  
 ३० खुदाये । और भवन के भीतर और बाहरवाले फरश उस  
 ३१ ने सोने से मढ़ाये । और भीतरी कोठरी के द्वार पर उस  
 ने जलपाई की लकड़ी के किवाड़ लगाये चौखट के  
 सिंहाने और बाजुओं को लंबाई भवन की चौड़ाई का पांचवां  
 ३२ भाग थी । दोनों किवाड़ जलपाई की लकड़ी के थे और  
 उस ने उन में करुब खजूर के दृक्ष और खिले हुए फूल  
 खुदाये और सोने से मढ़ा और करुबों और खजूरों के  
 ३३ ऊपर सोना चढ़ा दिया गया । इस रीति उस ने मन्दिर  
 के द्वार के लिये भी जलपाई की लकड़ी के चौखट के  
 बाज बनाये और वह भवन की चौड़ाई की चौथाई थी ।  
 ३४ दोनों किवाड़ सनोब' की लकड़ी के थे जिन में से एक  
 किवाड़ के दो पल्ले थे और दूसरे किवाड़ के दो पल्ले  
 ३५ थे जो पलटकर दुहर जाते थे । और उन पर भी उस ने  
 करुब खजूर के दृक्ष और खिले हुए फूल खुदाये और  
 ३६ खुदे हुए काम पर उस ने सोना मढ़ा । और उस ने भीतर-  
 वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों के तीन रङ्गे और  
 ३७ एक परत देवदारु की कड़ियां लगा कर बनाया । चौथे बरस  
 के जीव नाम महीने में यहोवा के भवन की नेब डाली  
 ३८ गई, और ग्यारहवें बरस केबूल नाम आठवें महीने में वह  
 भवन उस सब समेत जो उस में उचित समझा गया बन चुका  
 इस रीति सुलैमान को उस के बनाने में सात बरस लगे ॥

७. और सुलैमान ने अपने भवन को बनाया

और उस के पूरा करने में तेरह बरस  
 २ लगे । और उस ने लयानोनी वन नाम भवन बनाया जिस  
 की लम्बाई सो हाथ चौड़ाई पचास हाथ और ऊंचाई तीस  
 हाथ की थी वह तो देवदारु के खंभों को चार पाँच पर

बना और खंभों पर देवदारु की कड़ियां धरी गई । और ३  
 खंभों के ऊपर देवदारु की छतवाली पैतालीस कोठरियां  
 अर्थात् एक एक महल में पन्द्रह कोठरियां बनीं । तीनों ४  
 महलों में कड़ियां धरी गई और तीनों में खिड़कियां आम्हने  
 साम्हने बनीं । और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियां भी ५  
 चौकोर थीं और तीनों महलों में खिड़कियां आम्हने साम्हने  
 बनीं । और उस ने एक खंभेवाला ओसारा भी बनाया ६  
 जिस की लम्बाई पचास हाथ और चौड़ाई तीस हाथ की  
 थी और इन खंभों के साम्हने एक खंभेवाला ओसारा और  
 उस के साम्हने डेवड़ी बनाई । फिर उस ने न्याय के सिंहा- ७  
 सन के लिये भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का  
 ओसारा कहलाया और उस में एक फरश से दूसरे फरश  
 लों देवदारु की तखताबन्दी थी । और उसी के रहने का ८  
 भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में  
 बना सो उसी ढब से बना । फिर उसी ओसारे के ढब से  
 सुलैमान ने फिरौन की बेटी के लिये जिस को उस ने ब्याह  
 लिया था एक और भवन बनाया । ये सब घर बाहर भीतर ९  
 नेब से मुंडेर लों ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के  
 बने जो नापकर और आरों से चौरके तैयार किये गये थे  
 और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाये गये ।  
 उस की नेब तो बड़े मोल के बड़े बड़े अर्थात् दस दस और १०  
 आठ आठ हाथ के पत्थरों की डाली गई थी । और ऊपर भी ११  
 बड़े मोल के पत्थर थे जिन को नाप गढ़े हुए पत्थरों की सी  
 थी और देवदारु की लकड़ी भी थी । और बड़े आंगन के १२  
 चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पाथरों के तीन रङ्गे और देव-  
 दारु की कड़ियों का एक परत था जैसे कि यहोवा के भवन  
 के भीतरवाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे ॥

फिर राजा सुलैमान ने सोर से हीराम को बुलवा १३  
 भेजा । वह नसाली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा १४  
 था और उस का पिता एक सोरवासी ठठेग था और वह  
 पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि निपुणता  
 और समझ रखता था, सो वह राजा सुलैमान के पास  
 आकर उस का सारा काम करने लगा । उस ने पीतल १५  
 ढालकर अठारह अठारह हाथ ऊंचे दो खंभे बनाये और  
 एक एक का घेरा बारह हाथ के सूत का था । और उस १६  
 ने खंभों के सिरो पर लगाने को पीतल ढालकर दो  
 कंगनी बनाई एक एक कंगनी की ऊंचाई पांच पांच हाथ  
 की थी । और खंभों के सिरो पर को कंगनियों के लिये १७  
 चारखाने की सात सात जालियां और सांकरों की सात  
 सात झालरें बनीं । और उस ने खंभों को यों भी बनाया १८  
 कि खंभों के सिरो पर की एक एक कंगनी के ढांपने को

(१) मूल में अनारों ।



चारों ओर जालियों की एक एक पांति पर अनारों की  
 १९ दो पांति बनाई । और जो कंगनियां ओसारों में खंभों के  
 सिरे पर बनीं उन में चार चार हाथ ऊंचा सोसन फूल की  
 २० थीं । और एक एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई के पास  
 जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी और एक  
 एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पांति पांति करके  
 २१ बने सो दो सौ थे । इन खंभों को उस ने मन्दिर के  
 ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे  
 को खड़ा करके उस का नाम याकीन<sup>१</sup> रक्खा फिर बाईं  
 ओर के खंभे को खड़ा करके उस का नाम गोआज<sup>२</sup>  
 २२ रक्खा । और खंभों के सिरे पर सोसन फूल का काम बना  
 २३ खंभों का काम इसी रीति निपट गया । फिर उस ने एक  
 ढाला हुआ गंगाल बनाया जो एक छोर से दूसरी छोर  
 लों दस हाथ चौड़ा था उस का आकार गोल था और  
 उस की ऊंचाई पांच हाथ की थी और उस के चारों  
 २४ ओर का घेर तीस हाथ के सूत का था । और उस के  
 चारों ओर मोहड़े के नीचे एक एक हाथ में दस दस  
 इन्द्रायन बने जो गंगाल को घेरे थीं जब वह ढाला गया  
 २५ तब ये इन्द्रायन भी दो पांति करके ढाले गये । और  
 वह बारह बने हुए बैलों पर धरा गया जिन में से तीन  
 उत्तर तीन पच्छिम तीन दक्खिन और तीन पूरब की  
 ओर मुंह किये हुए थे और उन ही के ऊपर गंगाल था  
 २६ और उन सभी के पिछले अंग भीतरी पड़ते थे । और  
 उस का दल चौवा भर का था और उस का मोहड़ा  
 कटोरे के मोहड़े की नाईं सोसन के फूलों के काम से  
 २७ बना था और उस में दो हजार बत समाता था । फिर  
 उस ने पीतल के दस पाये बनाये एक एक पाये की  
 ऊंचाई चार हाथ चौड़ाई भी चार हाथ और ऊंचाई तीन  
 २८ हाथ की थी । उन पायों की बनावट ये थी उन  
 के पटरियां थी और पटरियों के बीच बीच जोड़ भी  
 २९ थे । और जोड़ों के बीच बीच की पटरियों पर सिंह  
 बैल और करुब बने और जोड़ों के ऊपर भी एक एक  
 और पाया बना और सिंहों और बैलों के नीचे लटके  
 ३० हुए हार बने । और एक एक पाये के लिये पीतल के  
 चार पहिये और पीतल की धुरियां बनीं और एक एक  
 के चारों कोनों से लगे दण्डवे कंधे भी ढालकर बनाये  
 गये जो हौदी के नीचे तक पहुंचते थे और एक एक  
 ३१ कंधे के पास हार थे । और हौदी का मोहड़ा जो पाये  
 की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था सो एक हाथ  
 ऊंचा था और पाये का मोहड़ा जिस की चौड़ाई डेढ़ हाथ  
 की थी सो पाये की बनावट के समान गोल बना और

(१) अर्थात् वह स्थिर रक्खे । (२) अर्थात् उसी में बंध ।

पाये के उसी मोहड़े पर भी कुछ खुदा हुआ था और  
 उन की पटरियां गोल नहीं चौकार थीं । और चारों ३२  
 पहिये पटरियों के नीचे थे और एक एक पाये के पहियों  
 में धुरियां भी थीं और एक एक पहिये की ऊंचाई डेढ़  
 डेढ़ हाथ की थी । पहियों की बनावट रथ के पहिये की ३३  
 सी थी और उन की धुरियां पुट्टियां आरे और नाभें सब  
 ढाली हुई थीं । और एक एक पाये के चारों कोनों पर ३४  
 चार कंधे थे और कंधे और पाये दोनों एक ही टुकड़े  
 के थे । और एक एक पाये के सिरे पर आध हाथ ऊंची ३५  
 चारों ओर गोलाई थी और पाये के सिरे पर की टेक  
 और पटरियां पाये से एक टुकड़े की थीं । और टेकों ३६  
 के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी  
 उस में उस ने करुब और सिंह और खजूर के वृक्ष  
 खोद कर भर दिये और चारों ओर हार भी बनाये ।  
 इसी ढब से उस ने दसों पायों को बनाया सभी का ३७  
 एक ही सांचा एक ही नाप और एक ही आकार था ।  
 और उस ने पीतल की दस हौदी बनाई एक एक ३८  
 हौदी में चालीस चालीस बत समाता था और एक एक  
 चार चार हाथ चौड़ी थीं और दसों पायों में से एक एक  
 पर एक एक हौदी थी और उस ने पांच हौदी भवन ३९  
 की दक्खिन ओर और पांच उस की उत्तर ओर रख  
 दीं और गंगाल को भवन की दहनी ओर अर्थात् पूरब  
 की ओर और दक्खिन के साम्हने धर दिया । और ४०  
 हीराम ने हौदियों<sup>३</sup> फावड़ियों और कटोरों को भी  
 बनाया । सो हीराम ने राजा सुलैमान के लिये यहोवा  
 के भवन में जितना काम करना था सो सब निपटा  
 दिया, अर्थात् दो खंभे और उन कंगनियों की गोलाईयां ४१  
 जो दोनों खंभों के सिरे पर थीं और दोनों खंभों के  
 सिरे पर की गोलाईयों के ढांपने को दो दो जालियां,  
 और दोनों जालियों के लिये चार चार सौ अनार अर्थात् ४२  
 खंभों के सिरे पर जो गोलाईयां थीं उन के ढांपनेहारी  
 एक एक जाली के लिये अनारों की दो दो पांति, दस ४३  
 पाये और इन पर की दस हौदी, एक गंगाल ४४  
 और उस के नीचे के बारह बैल, और हंडे फावड़ियां ४५  
 और कटोरे बने । ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के  
 भवन के निमित्त राजा सुलैमान के लिये बनाया सो  
 भलकाये हुए पीतल के बने । राजा ने उन को यदन ४६  
 की तराई में अर्थात् सुकोत और सारतान के बीच का  
 चिकनी मिट्टीवाली भूमि में ढाला । और सुलैमान ४७  
 ने सब पात्रों को बहुत अधिक होने के कारण बिना  
 तौले छोड़ दिया पीतल के तौल का कुछ लेखान

(३) वा हंडा ।

४८ हुआ । यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलैमान ने सब बनाये अर्थात् सोने की वेदी और सोने की बह मेज ४९ जिस पर भेंट की रोटी रक्खी जाती थी, और चोखे सोने की दीवटें जो भीतरी कोठरी के आगे पांच तो दक्खिन और और पांच उत्तर और रक्खी गईं और सोने के फूल ५० दीपक और चिमटे, और चोखे सोने के तसले कैंचियां कटोरे धूपदान और करछे और भीतरवाला भवन जो परमपवित्र स्थान कहावता है और भवन जो मन्दिर कहावता है दोनों के किवाड़ों के लिये सोने के कवजे ५१ बने । निदान जो जो काम राजा सुलैमान ने यहोवा के भवन के लिये किया सो सब निपट गया । तब सुलैमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किये हुये सोने चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचा कर यहोवा के भवन के भण्डारों में रख दिया ॥

(मन्दिर की प्रतिष्ठा)

**८. तब** राजा सुलैमान ने इस्राएली पुरनियों के और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे उन को भी यरूशलेम में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात् सियोन २ में ऊपर लिवा ले आए । सो सब इस्राएली पुरुष एतानाम नाम सातवें महीने के पर्व के समय राजा सुलैमान ३ के पास इकट्ठे हुए । जब सब इस्राएली पुरनिये आये ४ तब याजकों ने संदूक को उठा लिया । और यहोवा का संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सभों को याजक और लेवीय लोग ऊपर ५ ले गये । और राजा सुलैमान और सारी इस्राएली मंडली जो उस के पास इकट्ठी हुई थी वे सब संदूक के साम्हने इतनी भेड़ और बैल बलि कर रहे थे जिन की ६ गनती किसी रीति से न हो सकती थी । तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उस के स्थान को अर्थात् भवन की भीतरी कोठरी में जो परमपवित्र स्थान है ७ पहुंचाकर करुबों के पंखों के तले रख दिया । करुब तो संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाये हुए थे कि वे ८ ऊपर से संदूक और उस के ढंडों को ढाँपे थे । ढंडे तो ऐसे लम्बे थे कि उन के सिरे उस पवित्र स्थान से जो भीतरी कोठरी के साम्हने था देख पड़ते थे पर बाहर से तो वे ९ देख न पड़ते थे । वे आज के दिन लों बहीं हैं । संदूक में कुछ नहीं था उन दो पटियाओं को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उस के भीतर उस समय रक्खीं जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उन के साथ १० वाचा बांधी थी । जब याजक पवित्रस्थान से निकले तब

यहोवा के भवन में बादल भर आया । और बादल ११ के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था ॥

तब सुलैमान कहने लगा यहोवा ने कहा था कि मैं १२ घोर अंधकार में बास किये रहूंगा । सचमुच मैं ने तेरे १३ लिये एक वासस्थान बरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिस में तू युगयुग रहे । और राजा ने इस्राएल की १४ सारी सभा को और मुंह फेरके उस को आशीर्वाद दिया और सारी सभा खड़ी रही । और उस ने कहा घन्य है १५ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिस ने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है कि, जिस दिन से मैं अपनी प्रजा इस्रा- १६ एल को मिस्र से निकाल लाया तब से मैं ने किसी इस्रा-एली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना जिस में मेरे नाम के निवास के लिये भवन बनाया जाए पर मैं ने दाऊद को चुन लिया कि वह मेरी प्रजा इस्राएल का अधिकारी १७ हो । मेरे पिता दाऊद का यह मनसा तो थी कि इस्राएल १८ के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं । पर यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा यह जो तेरी मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं ऐसी १९ मनसा करके तू ने भला तो किया । तौ भी तू उस भवन को न बनाएगा तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा । यह जो वचन यहोवा ने कहा था २० उसे उस ने पूरा भी किया है और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्रा- २१ एल की गद्दी पर विराजता हूं और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया । और इस में २२ मैं ने एक स्थान उस संदूक के लिये ठहराया है जिस में यहोवा की वह वाचा है जो उस ने हमारे पुरखाओं को मिस्र देश से निकालने के समय उन से बांधी थी ॥

तब सुलैमान इस्राएल को सारी सभा के देखते २२ यहोवा की वेदी के साम्हने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर, कहा है यहोवा हे इस्राएल के २३ परमेश्वर तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथिवी पर कोई ईश्वर है तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं उन के लिये तू अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहता है । जो वचन तू ने मेरे पिता दाऊद को दिया था उस का २४ तू ने पालन किया है जैसा तू ने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उस को पूरा किया है जैसा आज है । सो अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा इस वचन २५

(१) मूल में तेरे साम्हने ।

को भी पूरा कर जो तू ने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था कि तेरे कुल में मेरे साम्हने इस्त्राएल की गद्दी पर विराजनेहारे सदा बने रहेंगे इतना हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहा वैसे ही तेरे बंश के लोग अपनी चालचलन में ऐसी ही चौकसी करें । सो अब हे इस्त्राएल के परमेश्वर अपना जो वचन तू ने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था उसे २७ सच्चा कर । क्या परमेश्वर सचमुच पृथिवी पर बास करेगा स्वर्ग में बरन सब से उंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता फिर २८ मेरे बनाये हुए इस भवन में क्योंकर समाएगा । तौभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह २९ प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे साम्हने कर रहा हूँ, कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात् इसी स्थान की ओर जिस के विषय तू ने कहा है कि मेरा नाम वहां रहेगा रात दिन खुली रहें और जो प्रार्थना तेरा दास ३० इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले । और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्त्राएल की प्रार्थना जिस को वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ाके करें उसे सुनना स्वर्ग में जो तेरा निवासस्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा ३१ करना । जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उस को किरिया खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में ३२ तेरी वेदी के साम्हने किरिया खाए, तब तू स्वर्ग में सुन कर अर्थात् अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उस की चाल उसी के सिवा लौटा दे और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उस के धर्म के अनुसार उस को फल ३३ देना । फिर जब तेरी प्रजा इस्त्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझ से गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे तब तू स्वर्ग में सुनकर अपनी प्रजा इस्त्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तू ने उन के पुरखाओं को ३४ दिया था । जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बन्द हो जाए कि वर्षा न होए ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को मानें और तू जो उन्हें दुःख देता है इस कारण अपने पाप से ३६ फिरें, तो तू स्वर्ग में सुनकर क्षमा करना अपने दासों अपनी प्रजा इस्त्राएल के पाप को क्षमा करना तू जो उन को वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिये इसलिये अपने इस देश पर जो तू ने अपनी ३७ प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना । अब इस

(१) मूल में तेरे साम्हने ।

देश में काल वा मरी वा भुलस हो वा गेरई वा टिंियां वा कीड़े लगें वा उन के शत्रु उन के देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें कोई विपत्ति वा रोग क्यों न हो, तब ३८ यदि कोई मनुष्य वा तेरी प्रजा इस्त्राएल अपने अपने मन का दुःख जान लें और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाएँ, तो तू ३९ अपने स्वर्गीय निवासस्थान में सुनकर क्षमा करना और काम करना और एक एक के मन की जानकर उस की सारी चाल के अनुसार उस को फल देना तू ही तो सारे आदमियों के मन की जाननेहारा है । तब वे जितने दिन ४० इस देश में रहें जो तू ने उन के पुरखाओं को दिया था उतने दिन तों तेरा भय मानते रहें । फिर परदेशी भी ४१ जो तेरी प्रजा इस्त्राएल का न हो जब वह तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वह तो तेरे बड़े नाम और ४२ बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई बांह का समाचार पाए सो जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में सुने और जिस बात ४३ के लिये ऐषा परदेशी तुझे पुकारे उसी के अनुसार करना जिस से पृथिवी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्त्राएल की नाईं तेरा भय मानें और निश्चय करें कि यह भवन जिसे मैं ने बनाया है सो तेरा ही कहलाता है । जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू ४४ उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की ओर जिसे तू ने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैं ने तेरे नाम का बनाया है यहोवा से प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में उन की प्रार्थना ४५ और गिड़गिड़ाहट सुने और उन का न्याय करे । निष्पाप ४६ तो कोई मनुष्य नहीं है सो यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन को बंधुआ करके अपने देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाएँ, तो यदि वे बन्धुआई के ४७ देश में सौच विचार करें और फिरकर अपने बंधुआ करनेहारों के देश में तुझ से गिड़गिड़ाके कहें कि हम ने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि ४८ वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंधुआ करके ले गये हैं अपने सारे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तू ने उन के पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तू ने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैं ने तेरे नाम का बनाया है तुझ से प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान ४९ में उन की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उन का न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध ५०

करेंगे और जितने अपराध वे तेरे करेंगे सब को क्षमा करके उन के बंधुआ करनेहारों के मन में ऐसी दया  
 ५१ उपजाना कि उन पर दया करें । क्योंकि वे तो तेरी प्रजा  
 और तेरा निज भाग हैं जिन्हें तू लोहे के भट्टे के बीच से  
 ५२ अर्थात् मित्र से निकाल लाया है । सो तेरी आँखें तेरे  
 दास की गिड़गिड़ाहट और तेरी प्रजा इस्राएल की  
 गिड़गिड़ाहट की ओर ऐसे खुली रहें कि जब जब वे तुझे  
 ५३ पुकारें तब तब तू उन की सुने । क्योंकि हे प्रभु यहोवा  
 अपने उस वचन के अनुसार जो तू ने हमारे पुरखाओं  
 को मित्र से निकालने के समय अपने दास मूसा के द्वारा  
 दिया था तू ने इन लोगों को अपना निज भाग होने के  
 लिये पृथिवी की सब जातियों से अलग किया है ॥  
 ५४ जब सुलैमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़-  
 गिड़ाहट के साथ कर चुका तब वह जो घुटने टेके आकाश  
 की ओर हाथ फैलाये हुए था सो यहोवा की वेदी के  
 ५५ साम्हने से उभा, और खड़ा हो सांगी इस्राएली सभा को  
 ५६ ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया कि, धन्य है  
 यहोवा जिस ने ठीक अपने कहे के अनुसार अपनी प्रजा  
 इस्राएल को विश्राम दिया है जितनी भलाई की बातें  
 उस ने अपने दास मूसा के द्वारा कही थीं उन में से एक  
 ५७ भी बिना पूरी हुए नहीं रही । हमारा परमेश्वर यहोवा  
 जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था वैसे ही हमारे संग  
 भी रहे वह हम को न त्यागे और न हम का छोड़ दे ।  
 ५८ वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फेर रखे कि हम उस  
 के सारे मार्गों पर चला करें और उस की आज्ञाएँ और  
 विधियाँ और नियम जिन्हें उस ने हमारे पुरखाओं को  
 ५९ दिया था माना करें । और मेरी ये बातें जिन करके मैं  
 ने यहोवा के साम्हने बिनती की है सो दिन रात  
 हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहें और जैसा  
 दिन दिन प्रयोजन हो वैसा ही वह अपने दास का और  
 ६० अपनी प्रजा इस्राएल का न्याय किया करे, और इस से  
 पृथिवी की सब जातियाँ यह जान लें कि यहोवा ही  
 ६१ परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं । सो तुम्हारा मन  
 हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा  
 रहे कि आज की नाई उस की विधियों पर चलते और  
 ६२ उस की आज्ञाएँ मानते रहे । तब राजा सारे इस्राएल  
 ६३ समेत यहोवा के संमुख मेलबलि चढ़ाने लगा । और जो  
 पशु सुलैमान ने मेलबलि करके यहोवा को चढ़ाये  
 सो बाईस हजार बैल और एक लाख बीस हजार  
 भेड़ें थीं । इस रीति राजा ने सब इस्राएलियों समेत  
 ६४ यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की । उस दिन राजा ने

(१) मूल में यहोवा के निकट रहें ।

यहोवा के भवन के साम्हनेवाले आंगन के बीच भी एक  
 स्थान पवित्र करके होमबलि अन्नबलि और मेलबलियों  
 की चरबी वहीं चढ़ाई क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा  
 के साम्हने थी सो उन के लिये छोटी थी । और सुलैमान ६५  
 ने और उस के संग सारे इस्राएल की एक बड़ी सभा ने  
 जो हमात की घाटी से ले मित्र के नाले तक के सारे देश  
 से एकट्ठी हुई थी दो अठवारे अर्थात् चौदह दिन तक हमारे  
 परमेश्वर यहोवा के साम्हने पर्व को मना । आठवें दिन ६६  
 उस ने प्रजा के लोगों को बिदा किया और वे राजा को  
 धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो  
 यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इस्राएल  
 से की थी आनन्दित और मगन होकर अपने अपने घर  
 को चले गये ॥

## ९. जब सुलैमान यहोवा के भवन और राज-

भवन का बना चुका और जो कुछ  
 उस ने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे २  
 गिबोन में उस को दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार  
 भी उसे दर्शन दिया । और यहोवा ने उस से कहा जो ३  
 प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तू ने मुझ से की है उस  
 को मैं ने सुना है यह जो भवन तू ने बनाया है उस में  
 मैं ने अपना नाम सदा के लिये रखकर उसे पवित्र  
 किया है और मेरी आँखें और मेरा मन निरन्तर वहीं लगे  
 रहेंगे । और यदि तू अपने पिता दाऊद को नाई मन का ४  
 खराई और सीधाई से अपने को मेरे साम्हने जानकर  
 चलता रहे और मेरा सब आज्ञाओं के अनुसार किया  
 करे और मेरी विधियाँ और नियमों को मानता रहे तो  
 मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिये स्थिर ५  
 करूँगा, जैसे कि मैं ने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया  
 था कि तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजनेहारे ६  
 सदा बने रहेंगे । पर यदि तुम लोग वा तुम्हारे वंश के  
 लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं  
 और विधियों को जो मैं ने तुम को दी हैं न मानें और  
 जाकर पराये देवताओं की उपासना और उन्हें दरदवत् ७  
 करने लगें, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैं  
 ने उन को दिया है काट डालूँगा और इस भवन को जो  
 मैं ने अपने नाम के लिये पवित्र किया है अपनी दृष्टि से ८  
 उतार दूँगा और सब देशों के लोगों में इस्राएल की  
 उपमा ही जाएगी और उस का दृष्टान्त चलेगा ।  
 और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा सो जो कोई इस के ९  
 पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा  
 और वे पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन

(२) मूल में मेरे साम्हने । (३) मूल में राजगद्दी ।

- ९ के साथ क्यों ऐसा किया है, सब लोग कहेंगे कि उन्होंने ने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उन के पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तजकर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उन को दण्डवत् की और उन की उपासना की इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी ॥
- १० सुलैमान को तो यहोवा के भवन और राजभवन  
११ दोनों के बनाने में बीस बरस लगे । तब सुलैमान ने सौर के राजा हीराम को जिस ने उस के मनमाने देवदारु और सनौबर की लकड़ी और सोना दिया था गालील देश के  
१२ बीस नगर दिये । जब हीराम ने सौर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलैमान ने उस को दिये थे तब वे उस को  
१३ अच्छे न लगे । सो उस ने कहा हे मेरे भाई ये क्या नगर तू ने मुझे दिये हैं । और उस ने उन का नाम कबूल देश  
१४ रक्खा और यही नाम आज के दिन लों पड़ा है । फिर हीराम ने राजा के पास साठ किष्कार सोना भेज दिया ॥
- १५ राजा सुलैमान ने जो लोगों के बेगारी में रक्खा इस का प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनाये और मिल्लो और यरूशलेम की शहरपनाह और  
१६ हासोर मगिहो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे । गेजेर पर तो मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया, और आग लगाकर फूंक दिया और उस नगर में रहने-हारे कनानियों को मार डालकर उसे अपनी बेटी सुलैमान  
१७ की रानी का निज भाग करके दिया था । सो गेजेर को  
१८ सुलैमान ने दृढ़ किया और नीचेवाले बेथोरोन, बालात और तामार को जो जंगल में हैं । ये तो देश में हैं ।
- १९ फिर सुलैमान के जितने भण्डार के नगर थे और उस के रथों और सवारों के नगर उन को बरन जो कुल्ल सुलैमान ने यरूशलेम लवानोन और अपने राज्य के सारे देश में बनाना चाहा उस सब को उस ने दृढ़ किया ।
- २० एमोरी हित्ती परिज्जो हिब्बी और यबूसी जो रह गये  
२१ थे जो इस्राएलियों में के न थे, उन के बंश जो उन के पीछे देश में रह गये और उन को इस्राएली सत्यानाश न कर सके उन को तो सुलैमान ने दास करके बेगारी में  
२२ रक्खा और आज लों उस की वही दशा है । पर इस्राएलियों में से सुलैमान ने किसी को दास न बनाया बं तो योद्धा और उस के कर्मचारी उस के हाकिम उस के सरदार और उस के रथों और सवारों के प्रधान हुए ।
- २३ जो मुख्य हाकिम सुलैमान के कामों के ऊपर ठहरके काम करनेहारे पर प्रभुता करते थे सो पांच सौ  
२४ पचास थे । जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर में से अपने उस भवन को आ गई जो उस ने उस के लिये बनाया था

तब उस ने मिल्लो को बनाया । और सुलैमान उस वेदा २५ पर जो उस ने यहोवा के लिये बनायी थी बरस बरस में तीन बार होमबलि और मेलबलि चढ़ाया करता और साथ ही उस वेदा पर जो यहोवा के सन्मुख थी धूप जलाया करता था यों ही उस ने उस भवन को तैयार कर दिया ॥

(सुलैमान की धनसंपत्ति और व्योपार और राबा की रानी का आना)

फिर राजा सुलैमान ने एस्थोनगेबेर में जो एदोम २६ देश में लाल समुद्र के तीरे एलोत के पास है जहाज बनाये । और जहाजों में हीराम ने अपने अधिकार के २७ मल्लाहों को जो समुद्र के जानकार थे सुलैमान के सेवकों के संग भेज दिया । उन्होंने ओपोर को जाकर वहां से २८ चार सौ बीस किष्कार सोना राजा सुलैमान को ला दिया ॥

## १० जब शबा की रानी ने यहोवा के नाम के

विषय सुलैमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उस की परीक्षा करने को चली । वह तो बहुत भारी दल और मसालों और २ बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिये हुए यरूशलेम को आई और सुलैमान के पास पहुँचकर अपने मन की सारी बातों के विषय उस से बातें करने लगी । सुलैमान ने उस के सब प्रश्नों का उत्तर दिया ३ कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उस को न बता सका । जब शबा की रानी ने ४ सुलैमान की सब बुद्धिमानी और उस का बनाया हुआ भवन, और उस की मेज पर का भोजन देखा और उस के कर्मचारी किस रीति बैठते और उस के टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहिने रहते हैं और उस के पिलानेहारे कैसे हैं और वह ५ कैसी चढ़ाई है जिस से वह यहोवा के भवन को जाया करता है यह सब जब उस ने देखा तब वह चकित हो गई । सो उस ने राजा से कहा तेरे कामों ६ और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैं ने अपने देश में सुनी सो सच ही है । पर जब लों मैं ने आप ही आकर अपनी आँखों से यह न देखा तब लों मैं ने उन बातों की प्रतीति ७ न की पर इस का आधा भी मुझे न बताया गया था तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़ कर है जो मैं ने सुनी थी । धन्य हैं तेरे जन धन्य हैं तेरे ये ८ सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख हाजिर रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं । धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझ से ९ ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर

(१) मूल में कोई बात राजा से न लिपी ।

विराजमान किया यहोवा इस्त्राएल से सदा प्रेम रखता है इस कारण उस ने तुम्हें न्याय और धर्म करने को राजा कर दिया है । और उस ने राजा को एक सौ बीस किकार सोना बहुत सा सुगंधद्रव्य और मणि दिये जितना सुगंधद्रव्य शबा की रानी ने राजा सुलैमान को दिया ११ उतना फिर कभी नहीं आया । फिर हीराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे सो बहुत सी चन्दन की लकड़ी और मणि भी लाये । और राजा ने चन्दन की लकड़ी के यहोवा के भवन और राजभवन के लिये जंगले और गानेहारों के लिये वीणाएँ और सारंगियाँ बनवाई ऐसी चन्दन की लकड़ी आज लोँ फिर नहीं आई और न देख पड़ी है । और शबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलैमान ने उस की इच्छा के अनुसार उस को दिया फिर राजा सुलैमान ने उस को अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई ॥

१४ जो सोना बरस दिन में सुलैमान के पास पहुँचा करता था उस का तौल छः सौ छियासठ किकार था । १५ इस से अधिक सौदागरों से और ब्यापारियों के लेन देन से और दोगली जातियों के सब राजाओं और अपने देश १६ के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था । और राजा सुलैमान ने सोना गढ़ाकर दो सौ बड़ी बड़ी ढालें बनाई, एक १७ एक ढाल में छः छः सौ शेकेल सोना लगा । फिर उस ने सोना गढ़ाकर तीन सौ छोटी ढालें भी बनाई एक एक छोटी ढाल में तीन माने सोना लगा और राजा ने उन १८ को लथानोनी वन नाम भवन में रखवा दिया । और राजा ने हाथीदांत का एक बड़ा सिंहासन बनाया और १९ उत्तम कुन्दन से मढ़ाया । उस सिंहासन में छः सीढ़ियाँ थीं और सिंहासन का सिंहाना पिछाड़ी की ओर गोल था और बैठने के स्थान की दोनों अलग टेक लगी थीं और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना २० था । और छहों सीढ़ियों की दोनों अलग एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था सो बारह हुए किसी राज्य में ऐसा २१ कभी न बना । और राजा सुलैमान के पीने के सब पात्र सोने के थे और लथानोनी वन नाम भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे चांद का कोई भी न था । सुलैमान २२ के दिनों में उस का कुछ लेखा न था । क्योंकि समुद्र पर हीराम के जहाजों के साथ राजा भी तर्शाश के जहाज रखता था और तीन तीन बरस पीछे तर्शाश के जहाज २३ सोना चांदी हाथीदांत बन्दर और मोर ले आते थे । सो राजा सुलैमान धन और बुद्धि में पृथिवी के सब राजाओं २४ से बढ़कर हो गया । और ८११ पृथिवी के लोग उस की

बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उस के मन में उपजाई थीं सुलैमान का दर्शन पाना चाहते थे । और वे बरस बरस अपनी अपनी भेंट अर्थात् चांदी और सोने के पात्र वस्त्र शस्त्र सुगंधद्रव्य घोड़े और खच्चर ले आते थे । और सुलैमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिये सो उस के चौदह सौ रथ और बारह हजार सवार हुए और उन को उस ने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रक्खा । और राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में चांदी का लेखा पत्थरों का सा और देवदारु का लेखा बहुतायत के कारण नीचे के देश के गूलरों का सा हो गया । और जो घोड़े सुलैमान रखता था सो मिस्र से आते थे और राजा के ब्यापारी उन्हें भुगड़ भुगड़ करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे । एक रथ तो छः सौ शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा षेड़ सौ शेकेल पर मिस्र से आता था और इसी दाम पर वे हिस्तियों और अराम के सारे राजाओं के लिये भी ब्यापारियों के द्वारा आते थे ॥

(सुलैमान का विगाह और ईश्वर का कोप और सुलैमान की मृत्यु)

११. पर राजा सुलैमान फिरान की बेटी और बहुतेरी और बिरानी स्त्रियों से जो मोआबी अम्मोनी एदोमी सीदोनी और द्विती थीं प्रीति करने लगा । वे उन जातियों की थीं जिन के विषय यहोवा ने इस्त्राएलियों से कहा था कि तुम उन के बीच न जाना और न वे तुम्हारे बीच आने पाएँ वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निःसन्देह फेरेंगी उन्हीं की प्रीति में सुलैमान लिस हो गया । और उस के सात सौ रानियाँ और तीन सौ रखेलियाँ हो गईं और उस की इन स्त्रियों ने उस का मन बहका दिया । सो जब सुलैमान बूढ़ा हुआ तब उस की स्त्रियों ने उस का मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उस का मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा । सुलैमान तो सीदनियों की अशतरेत नाम देवी और अम्मोनियों के मिल्काम नाम धिनोने देवता के पीछे चला । और सुलैमान ने वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला । उन दिनों सुलैमान ने यरूशलेम के साम्हने के पहाड़ पर मोआबिया के कमंश नाम धिनोने देवता के लिये और अम्मोनियों के मांलेक नाम धिनोने देवता के लिये एक एक ऊँचा स्थान बनाया । और अपनी सब बिरानी स्त्रियों के लिये भी जो अपने अपने देवताओं

को धूप जलाती और बलि करती थीं उस ने देखा ही किया ॥

- ९ सी यहोवा ने सुलैमान पर कोप किया क्योंकि उस का मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया १० जिस ने दो बार उस को दर्शन दिया था । और उस ने इसी बात के विषय आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना तौभी उस ने यहोवा की आज्ञा ११ न मानी । और यहोवा ने सुलैमान से कहा तुझ से जो ऐसा ही काम हुआ है और मेरी बन्धायें हुईं बाच्य और ही हुईं विधि तू ने नहीं पाती इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझ से छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दूंगा । १२ तौभी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐश्वर्य न करूंगा पर तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा । १३ परन्तु मैं सारा राज्य तो न छीन लूंगा पर अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए बकरालोम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ूंगा ॥ १४ सो यहोवा ने एदोमी हृदद को जो एदोमी राज- १५ वंश का था सुलैमान का शत्रु कर दिया । और जब दाऊद एदोम में था और यीश्राव सेनापति मारे हुओं १६ को मिट्टी देने गया, (योश्राव तो सारे इस्राएल समेत वहाँ छः महीने रहा था जब तक कि उस ने एदोम के १७ सब पुत्रों को नाश न किया था) । तब हृदद जो छोटा लड़का था अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के १८ संग मिस्र को जाने की मनसा से भागा । और वे मिस्रान से होकर पारान केत आये और पारान में से कई पुत्रों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गये और फिरौन ने उस को घर दिया और उस को भोजन मिस्रने १९ की आज्ञा दी और कुछ भूमि भी दी । और हृदद पर फिरौन की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई और उस ने उस को अपनी साली अर्थात् तहपनेस रानी की बहिन ब्याह दी । २० और तहपनेस की बहिन उस के जन्माये गनूबत को बनी और इस का दूध तहपनेस ने फिरौन के भवन में चुड़ाया तब गनूबत फिरौन के भवन में उसी के पुत्रों के बीच २१ रहा था । जब हृदद ने मिस्र में रहते यह सुना कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और यीश्राव सेनापति भी मर गया है तब उस ने फिरौन से कहा मुझे आज्ञा २२ दे कि मैं अपने देश को जाऊँ । फिरौन ने उस से कहा क्यों मेरे यहाँ तुम्हें क्या घटी हुई कि तू अपने देश को चला जाने चाहता है उस ने उत्तर दिया कुछ नहीं हुई तौभी तूके अवश्य जाने दे ॥ २३ फिर परमेश्वर ने उस का एक और शत्रु कर दिया अर्थात् एलयादा के पुत्र रजोन को यह तो अपने स्वामी

सीमा के राजा हृददेजेर के पास से भाग्य था, और जब २४ दाऊद ने सीमा के जनों को बलि किया तब रजोन अपने पास कई पुत्रों को इकट्ठे करके एक दल का प्रधान हो गया और वे हमिशक की जाकर वहाँ रहने और उस का राज्य करने लगे । और उस हानि को छोड़ जो हृदद २५ ने की रजोन भी सुलैमान के जीवन भर इस्राएल का शत्रु बना रहा और वह इस्राएल से फिर एलयादा हुआ अराम पर राज्य करता था ॥

फिर नवात का और सरुबाह नाम एक विषय का २६ पुत्र यरोबाम नाम एक एशैमी सरुबाहसी को सुलैमान का कर्मचारी था उस ने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया । उस के राजा के विरुद्ध सिर उठाने का वह २७ कारण हुआ कि सुलैमान मिस्रों को बना रहा और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार बन्द कर रहा था । यरोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलैमान ने जबान २८ को देखा कि यह कामकाजी है तब उस ने उस को यूहुफ के घराने के सब परिभम पर रखिया उठराया । उन्हीं दिनों में यरोबाम बकरालोम से निकलकर जा रहा २९ था कि शौलोवासी अहिय्याह नकी नई शहर छोड़े हुए मार्ग पर उस से मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे । और अहिय्याह ने अपनी उस ३० नई चहर को ले लिया और उसे फाड़कर बरह टुकड़े कर दिये । तब उस ने यरोबाम से कहा दस टुकड़े ले ३१ ले क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा वों कहता है कि तुन मैं राज्य को सुलैमान के हाथ से छीन कर दस गोत्र तेरे हाथ कर दूंगा । पर मेरे दास दाऊद के कारण ३२ और बकरालोम के कारण जो मैं ने इस्राएल के सारे गोत्रों में से चुना है उस का एक गोत्र बना रहेगा । इस ३३ का कारण यह है कि उन्हीं ने तुम्हें त्याग कर सीदोनियों की देवी अस्तोरेत मोभावियों के देवता बमोश और अम्मोनियों के देवता मिन्कोम को दरबन्द की और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में श्रेक है उसे नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों को नहीं पासा जैसे कि उस के पिता दाऊद ने किया । तौभी ३४ मैं उस के हाथ से सारा राज्य न ले लूंगा पर मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियां पासता रहा उस के कारण मैं उस को जीवन भर प्रधान उठराये रखूंगा । पर उस के पुत्र के हाथ से मैं ३५ राज्य अर्थात् दस गोत्र लेकर तुम्हें दे दूंगा । और उस के पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा इसलिये कि बकरालोम नगर में जिसे अपना नाम रखने का मैं ने चुना है मेरे

(१) मूल में हाथ ।

- ३७ दास दाऊद का मेरे साम्हने खड़ा दीपक बना रहे । पर तुम्हें मैं ठहरा खुश और तु अपनी इच्छा भर इस्राएल पर राज्य करेगा । और यदि तू मेरे दास दाऊद की नई मेरी सब आकांक्षा माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी इच्छा में ठीक है सोई करे और मेरी बिबिया और आकांक्षा बरकत रहे तो मैं तेरे संग रहूंगा और जैसे मैं ने दाऊद का बराना बनाये रक्खा है वैसे ही तेरा भी बराना बनाये रक्खूंगा, और तेरे हाथ इस्राएल का दूंगा । इस रूप के कारण मैं दाऊद के बंध को दुःख दूंगा सोभी सदा लों नहीं । और सुलैमान ने यारोवाम को मार डालना चाहा पर यारोवाम मिस्र में राजा शिशक के पास भाग गया और सुलैमान के मरने तक वहीं रहा ॥
- ४१ सुलैमान की और सब बातें और उस के सारे काम और उस की बुद्धिमानी का बर्णन क्या सुलैमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है । सुलैमान को यरुशलैम में सारे इस्राएल पर राज्य करते हुए चाहीस करस भीते । और सुलैमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उस को उस के पिता दाऊद के नगर में मिट्टी ही गई और उस का पुत्र रहवाम उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(यसायक के राज्य का दो भाग हो जाना)

## १२. रहवाम तो शकेम को गया क्योंकि सारा इस्राएल उस के राजा

- २ करने के लिये वहीं गया था । और नबात के पुत्र यारोवाम ने यह सुना (वह तो तब तक मिस्र में रहता था क्योंकि यारोवाम सुलैमान राज के दर के मारे भागकर मिस्र में रहता था । और उन लोगों ने उस को बुलवा भेजा और यारोवाम और इस्राएल की सारी समा रह-  
 ४ काय के बस जकर से कहने लगी कि, तेरे पिता ने जो हम सोचों पर भारी जूझा डाल रक्खा था जो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा के और उस भारी रूप को जो उस ने हम पर डाल रक्खा है कुछ हलका कर  
 ५ तब हम तेरे अधीन रहेंगे । उस ने कहा अभी तो जाओ और तीन दिन पीछे मेरे पास फिर आना लों वे चले गये ।  
 ६ तब राजा रहवाम ने उन बूढ़ों से जो उस के पिता सुलैमान के अधीन भर उस के साम्हने हाजिर रहा करते थे सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है इस में  
 ७ तुम क्या सम्मति देते हो । उन्होंने ने उस को यह उत्तर दिया कि यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उन के अधीन हो और उन से मधुर बातें कहे लों वे सदा  
 ८ लों तेरे अधीन बने रहेंगे । रहवाम ने उस सम्मति को

छोड़ा जो बूढ़ों ने उस को दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उस के संग बड़े हुए थे और उस के सम्मुख हाजिर रहा करते थे । उन से उस ने पूछा मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दू इस में तुम क्या सम्मति देते हो उन्होंने ने तो मुझ से कहा है कि जो जूझा तेरे पिता ने हम पर डाल रक्खा है उसे तू हलका कर । जवानों ने जो उस के संग बड़े हुए थे उस को यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझ से कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जूझा भारी किया था पर तू उसे हमारे लिये हलका कर तू उन से यों कहना कि मेरा खिं गुलिया मेरे पिता की कटि से भी मोटी उदरेगी । मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जूझा रक्खा था उसे मैं और भी भारी करूंगा मेरा पिता तो तुम को केड़ों से ताड़ना देता था पर मैं बिच्छूओं से दूंगा । तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना वैसे ही यारोवाम और सारी प्रजा रहवाम के पास हाजिर हुई । तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर, जवानों की संमति के अनुसार उन से कहा कि मेरे पिता ने तो तुम्हारा जूझा भारी कर दिया पर मैं उसे और भी भारी कर दूंगा मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुम को ताड़ना दी पर मैं तुम को बिच्छूओं से ताड़ना दूंगा । सो राजा ने प्रजा की न मानी इस का कारण यह है कि जो बचन यहोवा ने शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोवाम से कहा था उस का पूरा करने के लिये उस ने ऐसा ही ठहराया था । जब सारे इस्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश हमारा तो यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है इस्राएल अपने अपने डेरे को चले जाओ अब हे दाऊद अपने ही घराने की चिन्ता कर । लो इस्राएल अपने अपने डेरे को चले गये । केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे उन पर रहवाम राज्य करता रहा । तब राजा रहवाम ने अदोराम को जो सब बेगारों पर अधिकारी था भेज दिया और सब इस्राएलियों ने उस को पत्थरवाह किया कि वह मर गया सो रहवाम कुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरुशलैम को भाग गया । सो इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज लों फिर हुआ है । यह सुनकर कि यारोवाम लौट आया है सारे इस्राएल ने उस को मण्डली में बुलवा भेजकर सारे इस्राएल के ऊपर राजा किया और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला न रहा ॥

जब रहवाम यरुशलैम को आया तब उस ने यहूदा

(१) ल में राजा को उत्तर दिया ।



के सारे घराने को और बिन्यामीन के गोत्र को जो मिलकर एक लाख अस्सी हजार अच्छे योद्धा थे इकट्ठा किया इस लिये कि इस्राएल के घराने के साथ लड़ने से राज्य सुलैमान के पुत्र रहबाम के वश में फिर आए। तब परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर के जन शमायाह के पास पहुँचा कि, यहूदा के राजा सुलैमान के पुत्र रहबाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सारे घरानों से और और सब लोगों से कह, यहोवा यों कहता है कि अपने माई इस्राएलियों पर चढाई करके युद्ध न करो तुम अपने अपने घर लौट जाओ क्योंकि यह बात मेरी ही और से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर उन्होंने उस के अनुसार लौट जाने को अपना अपना माग लिया ॥

(यारोबाम का मूर्त्तिपूजा चलाना)

२५ तब यारोबाम एप्रैम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को हट करके उस में रहने लगा फिर वहाँ से निकलकर २६ पनूएल को भी हट किया। तब यारोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। २७ यदि प्रजा के ये लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएँ तो उन का मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहबाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहबाम के हो जाएँगे। सो राजा ने सम्मति लेकर सोने के दो बछड़े बनाये और लोगों से कहा यरूशलेम को तो बहुत बेर गये हो सो हे इस्राएल अपने ईश्वरों को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाये हैं। सो उस ने एक बछड़े को बेतेल और २९ दूसरे को दान में स्थापित किया। और यह बात पाप के कारण हुई और लोग एक के सामने दण्डवत् करने को ३० दान लौ जाने लगे। और उस ने ऊँचे स्थानों के भवन बनाये और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवीवंशी न थे याजक ठहराये। फिर यारोबाम ने आठवें महीने के पन्द्रहवें दिन यहूदा में के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा इस रीति उस ने बेतेल में अपने बनाये हुए बछड़ों के लिये वेदी पर बलि किया और अपने बनाये हुए ऊँचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया ॥

(यहूदा नबी की कथा)

३३ और जिस महीने को उस ने अपने मन में कल्पना की थी अर्थात् आठवें महीने के पन्द्रहवें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उस ने इस्राएलियों के लिये एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया ॥

(१) मूल में अन्त के लोगों ।

१३. तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने को वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा कि वेदी हे वेदी यहोवा यों कहता है कि सुन दाऊद के कुल में योशियाह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा वह उन ऊँचे स्थानों के याजकों को जो तुम्ह पर धूप जलाते हैं तुम्ह पर बलि कर देगा और तुम्ह पर मनुष्यों की हड्डियाँ जलाई जाएँगी। और उस ने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिह्न भी बताया कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है इस का चिह्न यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उस बेतेल के विरुद्ध पुकारके कहा यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा उस को पकड़ लो तब उस का हाथ जो उस की ओर बढ़ाया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका। और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई सो वह चिह्न पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिये प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए सो परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा मेरे संग घर चलकर अपना जी ठंडा कर और मैं तुम्हें दान भी दूँगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तौभी तेरे घर न चलूँगा और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊँगा न पानी पीऊँगा। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यों आशा मिली है कि न तो रोटी खाना न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिस से तू जाएगा। सो वह उस मार्ग से जिस से बेतेल को गया था न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया ॥

बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उस के एक बेटे ने आकर उस से उन सब कामों का बर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किये थे और जो बातें उस ने राजा से कही थीं उन को भी उस ने अपने पिता से कह सुनाया। उस के बेटों ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया सो उन के पिता ने उन से पूछा वह किस मार्ग से चला गया। और उस ने अपने बेटों से कहा मेरे लिये गदहे पर काठी बांधो सो उन्होंने ने गदहे पर काठी बांधी और

१४ वह उस पर चढ़ा, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर  
उसे एक बाजबृक्ष के तले बैठा हुआ पाया और उस से  
पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू  
१५ वही है उस ने कहा हाँ बही हूँ । उस ने उस से कहा मेरे  
१६ संग घर चलकर भोजन कर । उस ने उस से कहा मैं न  
तो तेरे संग लौट सकता न तेरे संग घर में जा सकता और  
न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊँगा वा पानी पीऊँगा ।  
१७ क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली  
है कि वहाँ न तो रोटी खाना न पानी पीना और जिस  
१८ मार्ग से तू जाएगा उस से न लौटना । उस ने कहा जैसा  
तू वैसा ही मैं भी नबी हूँ और मुझ से एक दूत ने यहोवा  
से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने  
घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पीए । यह  
१९ उस ने उस से झूठ कहा । सो वह उस के संग लौटा  
२० और उस के घर में रोटी खाई और पानी पिया । वे मेज  
पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुँचा  
२१ जो दूसरे को लौटा ले आया था । और उस ने परमेश्वर  
के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकारके कहा  
यहोवा यों कहता है कि तू ने यहोवा का वचन न माना  
और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे  
२२ नहीं माना, पर जिस स्थान के विषय उस ने तुझ से कहा  
था कि उस में न रोटी खाना न पानी पीना उसी में तू  
ने लौट कर रोटी खाई और पानी पिया है इस कारण  
तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी न दी  
२३ जाएगी । जब यह खा पी चुका तब उस ने परमेश्वर के  
उस जन के लिये जिस को वह लौटा ले आया था गदहे  
२४ पर काठी बांधाई । वह मार्ग में चल रहा था कि एक  
सिंह उसे मिला और उस की मार डाला और उस की  
लोथ मार्ग पर पड़ी रही और गदहा उस के पास खड़ा रहा  
२५ और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा । जो लोग उधर  
से चले उन्होंने यह देख कर कि मार्ग पर एक लोथ पड़ी  
है और उस के पास सिंह खड़ा है उस नगर में जाकर  
जहाँ वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया ।  
२६ यह सुनकर उस नबी ने जो उस को मार्ग पर से लौटा  
ले आया था कहा परमेश्वर का वही जन होगा जिस ने  
यहोवा के कहे के विरुद्ध किया था इस कारण यहोवा ने  
उस को सिंह के पंजे में पड़ने दिया और यहोवा के उस  
वचन के अनुसार जो उस ने उस से कहा था सिंह ने उसे  
२७ फाड़ कर मार डाला होगा । तब उस ने अपने बेटों से कहा  
मेरे लिये गदहे पर काठी बांधो जब उन्होंने काठी  
२८ बांधी, तब उस ने जाकर उस जन की लोथ मार्ग पर पड़ी  
हुई और गदहे और सिंह दोनों के लोथ के पास खड़े

हुए पाया और यह भी कि सिंह ने न तो लोथ को  
खाया और न गदहे को फाड़ा है । तब उस बूढ़े नबी ने २९  
परमेश्वर के जन की लोथ उठाकर गदहे पर लाद ली और  
उस के लिये छाती पीटने और उसे मिट्टी देने को अपने  
नगर में लौटा ले गया । और उस ने उस की लोथ को ३०  
अपने कब्रिस्तान में रक्खा और लोग हाथ मारे  
भाई यह कहकर छाती पीटने लगे । फिर उसे मिट्टी ३१  
देकर उस ने अपने बेटों से कहा जब मैं मर जाऊँ तब  
मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिस में परमेश्वर का  
यह जन रक्खा गया है और मेरी हड्डियाँ उसी की हड्डियों  
के पास धर देना । क्योंकि जो वचन उस ने यहोवा से ३२  
पाकर बेटेल में की वेदी और शोमरोन के नगरों में  
के सब ऊँचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है  
सो निश्चय पूरा हो जाएगा ॥

(यारोबाम का अन्तकाल)

इस के पीछे यारोबाम अपनी बुरी चाल से न ३३  
फिरा । उस ने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊँचे  
स्थानों के याजक बनाये बरन जो कोई चाहता था उस का  
संस्कार करके वह उस को ऊँचे स्थानों का याजक होने  
को ठहरा देता था । और यह बात यारोबाम के घराने ३४  
का पाप ठहरी इस कारण उस का विनाश हुआ और  
वह धरती पर से नाश किया गया ॥

१४. उस समय यारोबाम का बेटा अहिय्याह

रोगी हुआ । सो यारोबाम ने अपनी २  
स्त्री से कहा ऐसा मेष बना कि कोई तुझे पहिचान न सके  
कि यह यारोबाम की स्त्री है और शीलो को चली जा वहाँ  
तो अहिय्याह नबी रहता है जिस ने मुझ से कहा था कि  
तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा । उस के पास तू दस ३  
रोटी और पपड़ियाँ और एक कुप्पी मधु लिये हुए जा और  
वह तुझे बताएगा कि लड़के को क्या होगा । यारोबाम की ४  
स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुँची और  
अहिय्याह के घर पर आई अहिय्याह को तो कुछ सूझ न  
पड़ता था क्योंकि बुढ़ापे के कारण उस की आँखें धुन्धली  
पड़ गई थीं । और यहोवा ने अहिय्याह से कहा सुन ५  
यारोबाम की स्त्री तुझ से अपने बेटे के विषय जो रोगी  
है कुछ पूछने को आती है सो तू उस से यों यों कहना ६  
वह तो आकर अपने को दूसरी बताएगी । सो जब  
अहिय्याह ने द्वार में आते हुए उस के पाँव की आहट  
सुनी तब कहा हे यारोबाम की स्त्री भीतर आ तू अपने  
को क्यों दूसरी बताती है मुझे तेरे लिये भारी सन्देशा ७  
मिला है । तू जाकर यारोबाम से कह इस्ताफल का परमे-  
श्वर यहोवा तुझ से यों कहता है कि मैं ने तो तुझ को

८. अन्धा में से बहाकर अपनी प्रजा इस्त्राएल पर प्रधान किया,  
 और हाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुक को दिया  
 पर तू मेरे दास हाऊद के समान न हुआ जो मेरी  
 आज्ञाओं की मानता और अपने सारे मन से मेरे पीछे  
 पाँछे चलता और केवल वही करता था जो मेरे लक्ष्य  
 ९. शीक है । तू ने उन सभी से बहाकर जो तुक से पहले थे  
 बुराई की है और जाकर पराये देवता मान लिये और  
 मूर्तें बालक बनाईं जिस से मुझे रिश उपजी और मुझे  
 १०. तो पीठ पीछे कर दिया है । इस कारण मैं यारोबाम के  
 घराने पर विपत्ति डालूँगा वरन मैं यारोबाम के कुल में  
 से हर एक लड़के को और क्या बन्धुए क्या स्वाधीन  
 इस्त्राएल के बीच हर एक रहनेहारे को भी नाश कर  
 डालूँगा और जैसा कोई लौट तब लौ उठता रहता है  
 जब लौ वह सब उठ नहीं जाती वैसे ही मैं यारोबाम के  
 ११. घराने को उठा दूँगा । यारोबाम के घराने का जो कोई  
 नगर में मर जाए उस को कुत्ते खाएँगे और जो मैदान  
 में मरे उस को आकाश के पक्षी खा जाएँगे क्योंकि यहोवा  
 १२. ने यह कहा है । सो तू अपने घर चली जा और नगर  
 के भीतर तेरे पाँव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा ।  
 १३. उसे तो सारे इस्त्राएली छाती पीटकर मिट्टी देंगी यारोबाम  
 के घराने में से उसी की कबर मिलेगी क्योंकि यारोबाम  
 के घराने में से यहोवा के विषय उस में कुछ अच्छा  
 १४. पाया जाता है । फिर यहोवा इस्त्राएल का ऐसा राजा  
 कर लेगा जो उसी दिन यारोबाम का घराना नाश कर  
 १५. डालेगा वरन वह कर ही चुका है । क्योंकि यहोवा इस्त्रा-  
 एल को ऐसा मरेगा जैसा जल की धारा से नरक  
 डिलाया जाता है और वह उन सबे इस अच्छी भूमि में  
 से जो उस ने उन के पुरखाओं के ही थी उसाडकर  
 महानद के पार सिन्धु सिन्धु करेगा क्योंकि उन्होंने ये घराना  
 १६. नाम मूर्तें बनाकर यहोवा को रिश दिलाई है । और  
 उन फलों के कारण जो यारोबाम ने किये और इस्त्राएल  
 १७. से कराये वे यहोवा इस्त्राएल को त्याग देका । तब यारो-  
 बाम की स्त्री बिदा होकर चली और तिसर की आई और  
 वह भवन की डेवली कर पहुँची ही थी कि बालक मर  
 १८. गया । तब यहोवा के उस बन्धन के अनुसार जो उस ने  
 अपने दस बन्धुव्यह नही से कहाया था उसे इस्त्रा-  
 एल ने उस को मिट्टी देकर उस के लिये छाती पीटी ।  
 १९. यारोबाम के और कर्म अर्थात् उस ने कैसा कैसा युद्ध  
 किया और कैसा राज्य किया यह सब इस्त्राएल के राजाओं  
 २०. के इतिहास की पुस्तक में लिखा है । यारोबाम बईस  
 बरस लौ राज्य करके अपने पुरखाओं के साथ सोया और  
 उस का नदाब दास पुत्र उस के स्थानपर राजा हुआ ॥

(रहवाम का राज्य)

और सुलैमान का पुत्र रहवाम बहुदा में राज्य २१  
 करने लग्य । रहवाम इक्तालीस बरस का होकर राज्य  
 करने लगा और यरुशलेम जिस को यहोवा ने सारे  
 इस्त्राएली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिये चुन  
 लिया था उस नगर में वह सत्रह बरस तक राज्य करता  
 रहा और उस की माता का नाम नामा था जो अम्मोनी  
 २२. की थी । और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा के  
 लेखे बुरा है और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके  
 उस की जलन बढ़ाई । उन्होंने ने तो सब ऊँचे टीलों पर  
 २३. और सब हरे वृक्षों के तले ऊँचे स्थान और हाठे और  
 अरोरा नाम मूर्तें बना लीं । और उन के देश में यरुश-  
 २४. गामी भी थे निदान वे उन जातियों के से सब बिनीने  
 काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्त्राएलियों के साम्हने से  
 निकास दिया था । राजा रहवाम के पाँचवें बरस में  
 २५. मिस्र का राजा शीसक यरुशलेम पर चढ़ाई करके, यहोवा  
 के भवन की अनमोल वस्तुएँ और राजभवन की अन-  
 मोल वस्तुएँ सब की सब उठा ले गया और सोने की  
 जो परिचां सुलैमान ने बनाई थीं उन सब को वह ले  
 गया । सो राजा रहवाम ने उन के बदले पीतल की ढालें  
 २६. बनवाई और उन्हें पहरेदारों के प्रधानों के हाथ लौप दिया  
 जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे । और जब  
 २७. जब राजा यहोवा के भवन में जाता तब तब पहरेदार उन्हें  
 उठा ले चलते और फिर अपनी कोठरी में लौटाकर रख  
 देते थे । रहवाम के और सब काम जो उस ने किये तो  
 २८. क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं  
 लिखे हैं । रहवाम और यारोबाम के बीच तो लड़कई सदा  
 २९. होती रही । और रहवाम जिस की माता नामा नाम एक  
 ३०. अम्मोनिन थी अपने पुरखाओं के साथ तो गया और  
 ३१. उन्हीं के पास दाऊदपुर में उस को मिट्टी दी गई और उस  
 का पुत्र अबिय्यास उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(अबिय्यास का राज्य)

**१५. नवात के पुत्र यारोबाम के राज्य के**

अठ्ठहत्त बरस में अबिय्यास  
 यहूदा पर राज्य करने लगा । और वह तीन बरस लौ  
 २. यरुशलेम में राज्य करता रहा उस की माता का नाम  
 माका था जो अबहालाम की नतिनी थी । वह जैसे ही  
 ३. पापों की छीक पर चलता रहा जैसे उस के पिता ने उस  
 से पछि किये और उस का मन अपने परमेश्वर यहोवा  
 की और अपने परदादा दाऊद की भाई पूरी रीति से  
 ४. लग्य न था, तेन्ही हाऊद के कारण उस के परमेश्वर  
 यहोवा ने यरुशलेम में उसे एक दीपक देकर उस के

पुत्र को उस के पीछे खरना और यरुशलेम को कब्जे  
 ५ राज्या । क्योंकि दाऊद वह किये करवा था जो यहोवा  
 के लेखे ठीक है और हिची अहियाह की बात छोड़  
 और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन  
 ६ भर कभी न मुड़ा । रहवाम के जीवन भर ही उस के  
 ७ और यारोवाम के बीच लड़ाई होती रही । अहिय्याम के  
 और सब काम जो उस ने किये कया ने यहूदा के राजाओं  
 के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं । और अहिय्याम  
 ८ की यारोवाम के साथ लड़ाई होती रही । निदान अहिय्याम  
 अपने पुरखाओं के संग सोया और उस को दाऊद-  
 पुर में मिट्टी दी गई और उस का पुत्र आसा उस के  
 स्थान पर राजा हुआ ॥

(आसा का राज्य)

९ इस्राएल के राजा यारोवाम के तीसरे बरस में  
 १० आसा यहूदा पर राज्य करने लगा, और यरुशलेम में  
 इकतालीस बरस लों राज्य करता रहा और उस की  
 ११ माता अबशात्तम भी नतिनी माका थी । और आसा ने  
 अपने मूलपुरुष दाऊद की नाईं सही किया जो यहोवा  
 १२ की इच्छा में ठीक है । उस ने तो पुरुषामियों को देश से  
 निकाल दिया और जितनी मूर्तें उस के पुरखाओं ने  
 १३ बनाई थीं उन सभी को उस ने दूर किया । बरन उस की  
 माता माका जिस ने अशेर के पास रहने को एक बिनौनी  
 मूर्त बनाई उस को उस ने राजमाता के पद से उतार  
 दिया और आसा ने उस की मूर्त को काट डाला और  
 १४ क्रिदोन नाले में फूंक दिया । ऊंचे स्थान तो टाए न गये  
 तौभी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी  
 १५ रीति से लगा रहा । और जो सोना चांदी और पात्र उस  
 के पिता ने अर्पण किये थे और जो उस ने आप अर्पण  
 किये थे उन सभी को उस ने यहोवा के भवन में गूँचा  
 १६ दिया । और आसा और इस्राएल के राजा बाशा के  
 १७ बीच उन के जीवन भर लड़ाई होती रही । और इस्रा-  
 एल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा  
 को इसलिये हड़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा  
 १८ के पास आने जाने न पाए । तब आसा ने जितना सोना  
 चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भवदारों में रह  
 गया था उस सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ  
 सौंकर दनिशकवासी अराम के राजा बेहदद के पास जो  
 हेज्योन का पोता और तबिम्मोन का पुत्र था भेजकर  
 १९ यह कहा कि, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे  
 बीच भी बाचा बन्धी जाए देख मैं तेरे पास चांदी सोने  
 की भेंट भेजता हूँ तो आ । इस्राएल के राजा बाशा के  
 अथ की अपनी बाचा के दत्त है इसलिये कि वह मुक्त

पर से दूर हो । राजा आसा की वह बात मानकर बेहद- २०  
 दद ने अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर  
 चढ़ाई करवाकर इन्मेन हवन आवेष्टकेमाका और सारे  
 कियेले के नशाकी के सारे देश समेत जीत लिया । यह २१  
 सुनकर बाशा ने रामा का हठ करना छोड़ दिया और  
 तिसा में रहा । तब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार २२  
 कराके किसी को बिना छोड़े सबों को बुलावा से वे  
 रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिन से बासा उसे हड़  
 करता था उठा ले गये और उन से राजा आसा ने  
 किय्यामीन में के मेक और मित्तस को हड़ किया ।  
 आसा के और काम और उस की वीरता और जो कुछ २३  
 उस ने किया और जो नगर उस ने हड़ किये वह सब कया  
 यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा  
 है । बुढ़ापे में तो उसे पाँवों का रोग लगा । निदान आसा २४  
 अपने पुरखाओं के संग सोया और उसे उस के मूलपुरुष  
 दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी और उस का  
 पुत्र यहोशयात उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(नादाब का राज्य)

यहूदा के राजा आसा के दूसरे बरस में यारोवाम २५  
 का पुत्र नादाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और दो  
 बरस लों राज्य करता रहा । उस ने वह किया जो यहोवा २६  
 के लेखे बुरा है और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप  
 करता हुआ चलता रहा जो उस ने इस्राएल से कराया  
 था । नादाब सब इस्राएल समेत पक्षिशियों के देश के २७  
 गिबतोन नगर को घेरे था । कि इस्राएल के गोत्र के  
 अहिय्याह के पुत्र बाशा ने उस के विरुद्ध राजद्रोह की  
 गोष्ठी करके गिबतोन के पास उस को मार डाला ।  
 और यहूदा के राजा आसा के तीसरे बरस में बाशा ने २८  
 नादाब को मार डाला और उस के स्थान पर राजा  
 हुआ । राजा होते ही बाशा ने यारोवाम के सारे बराने २९  
 को मार डाला उस ने यारोवाम के बरा को यहाँ लों  
 बिनाश किया कि एक भी जीता न रहा यह सब यहोवा  
 के उस वचन के अनुस्मर हुआ जो उस ने अपने दास  
 शीलोवासी अहिय्याह से कहाया था । यह इन कावय्य ३०  
 हुआ कि यारोवाम ने आप पाप किये और इस्राएल से  
 भी करावे थे और उस ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा  
 को रिस दिलाई थी । नादाब के और सब काम जो उस ३१  
 ने किये सो कया इस्राएल के राजाओं के इतिहास की  
 पुस्तक में नहीं लिखे हैं । आसा और इस्राएल के राजा ३२  
 बाशा के बीच लों उन के जीवन भर लड़ाई होती रही ॥

(बासा का राज्य)

यहूदा के राजा आसा के तीसरे बरस में अहिय्याह ३३

का पुत्र बाशा तिस्रा में सात इस्त्राएल पर राज्य करने  
 ३४ लगा और चौबीस बरस लों राज्य करता रहा । और उस  
 ने वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है और यारोवाम  
 के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जिसे उस  
 १ १६ ने एस्त्राएल से कराया था । और बाशा  
 के विषय यहोवा का यह वचन हनानी  
 २ के पुत्र येहू के पास पहुंचा कि, मैं ने तुझ को मिट्टी पर  
 से उठाकर अपनी प्रजा इस्त्राएल का प्रधान किया पर तू  
 यारोवाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इस्त्राएल  
 से ऐसे पाप कराता आया है जिन से वे मुझे रिस दिलाते  
 ३ हैं । सुन मैं बाशा को धराने समेत पूरी रीति से उठा दूंगा  
 और तेरे धराने को नबात के पुत्र यारोवाम का सा कर  
 ४ दूंगा । बाशा के घर का जो कोई नगर में मर जाए उस  
 को कुत्ते खा डालेंगे और उस का जो कोई मैदान में मर  
 ५ जाए उस को आकाश के पत्नी खा डालेंगे । बाशा के और  
 सब काम जो उस ने किये और उस की वीरता यह सब क्या  
 इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा  
 ६ है । निदान बाशा अपने पुरखाओं के संग सोया और तिस्रा  
 में उसे मिट्टी दी गई और उस का पुत्र एला उस के स्थान  
 ७ पर राजा हुआ । यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र येहू  
 के द्वारा बाशा और उस के धराने के विरुद्ध आया सो  
 न केवल उस सारी बुराई के कारण आया जो उस ने  
 यारोवाम के धराने के समान होकर यहोवा के लेखे की  
 और अपने कामों से उस को रिस दिलाई बरन इस  
 कारण भी आया कि उस ने उस को मार डाला था ॥

(एला का राज्य)

८ यहूदा के राजा आसा के छब्बीसवें बरस में बाशा  
 का पुत्र एला तिस्रा में एस्त्राएल पर राज्य करने लगा  
 ९ और दो बरस लों राज्य करता रहा । जब वह तिस्रा में  
 अर्सा नाम भएडारी के घर में जो उस के तिस्रा में के  
 भवन का प्रधान था दारू पीकर मतभाला हो गया था  
 तब उस के जिम्मी नाम एक कर्मचारी ने जो उस के आधे  
 १० रथों का प्रधान था राजद्रोह की गोष्ठी की, और भीतर  
 जाकर उस को मार डाला और उस के स्थान पर राजा  
 हुआ । यह यहूदा के राजा आसा के सत्ताईसवें बरस में  
 ११ हुआ । और जब वह राज्य करने लगा तब गद्दी पर  
 बैठते ही उस ने बाशा के सारे धराने को मार डाला बरन  
 उस ने न तो उस के कुटुंबियों और न उस के मित्रों में से  
 १२ एक लड़के को भी जीता छोड़ा । इस रीति यहोवा के उस  
 वचन के अनुसार जो उस ने येहू नबी से बाशा के विरुद्ध  
 कहा था जिम्मी ने बाशा का सारा धराना बिनाश किया ।  
 १३ इस का कारण बाशा के सब पाप और उस के पुत्र एला

के भी पाप थे जो उन्होंने ने आप करके और इस्त्राएल से  
 भी कराके इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों  
 से रिस दिलाई थी । एला के और सब काम जो उस ने १४  
 किये सो क्या इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की  
 पुस्तक में नहीं लिखे हैं ॥

(जिम्मी का राज्य)

यहूदा के राजा आसा के सत्ताईसवें बरस में जिम्मी १५  
 तिस्रा में राज्य करने लगा और तिस्रा में सात दिन लों  
 राज्य करता रहा । उस समय लोग पलिरितयों के देश  
 में के गिबबतोन के विरुद्ध डेरे किये हुए थे । सो जब उन १६  
 डेरे लगाये हुए लोगों ने सुना कि जिम्मी ने राजद्रोह की  
 गोष्ठी करके राजा को मार डाला तब उसी दिन सारे  
 इस्त्राएल ने ओम्नी नाम प्रधान सेनापति को छ्वाबनी में  
 इस्त्राएल का राजा किया । तब ओम्नी ने सारे इस्त्राएल १७  
 का संग लो गिबबतोन को छोड़कर तिस्रा को घेर लिया ।  
 जब जिम्मी ने देखा कि नगर लै लिया गया है तब राज- १८  
 भवन के गुम्मत में जाकर राजभवन में आग लगा दी और  
 उसी में आप भी जल मरा । यह उस के पापों के कारण १९  
 हुआ कि उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है  
 क्योंकि वह यारोवाम की सी चाल और उस के किये हुए  
 और इस्त्राएल से कराये हुए पाप की लीक पर चला ।  
 जिम्मी के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उस ने २०  
 की यह सब क्या इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की  
 पुस्तक में नहीं लिखा है ॥

(ओम्नी का राज्य)

तब इस्त्राएली प्रजा दो भाग हो गई प्रजा के आधे २१  
 लोग तो तिब्नी नाम गीनत के पुत्र को राजा करने के  
 लिये उसी के पीछे हो लिये और आधे ओम्नी के पीछे  
 हो लिये । अन्त में जो लोग ओम्नी के पीछे हुए थे वे २२  
 उन पर प्रबल हुए जो गीनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो  
 लिये थे सो तिब्नी मारा गया और ओम्नी राजा हुआ ।  
 यहूदा के राजा आसा के इकतीसवें बरस में ओम्नी इस्त्रा- २३  
 एल पर राज्य करने लगा और बारह बरस लों राज्य  
 करता रहा, उस ने छः बरस तो तिस्रा में राज्य किया । और २४  
 उस ने शेमेर से शोमरोन पहाड़ को दो किकार चांदी में  
 मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाये हुए  
 नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोम-  
 रोन रखवा । और ओम्नी ने वह किया जो यहोवा के २५  
 लेखे बुरा है बरन उन सभी से भी जो उस से पहिले थे  
 अधिक बुराई की । वह नबात के पुत्र यारोवाम की २६  
 सी सारी चाल चला और उस के सारे पापों के अनुसार  
 जो उस ने इस्त्राएल से ऐसे कराये कि उन्हो ने इस्त्राएल

के परमेश्वर यहोवा को अपनी व्यर्थ बातों से रिस दिलाई ।  
 १७ ओझी के और काम जो उस ने किये और जो बीरता उस  
 ने दिखाई यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास  
 १८ की पुस्तक में नहीं लिखा है । निदान ओझी अपने पुरखाओं  
 के संग सोया और शोमरोन में उस को मिट्टी दी गई  
 और उस का पुत्र अहाब उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(अहाब के राज्य का आरम्भ)

१९ बहुतों के राजा आसा के अड़तीसवें बरस में ओझी  
 का पुत्र अहाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और इस्रा-  
 २० एल पर शोमरोन में बाईस बरस खो राज्य करता रहा ।  
 २१ और ओझी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उस  
 से पहिले ये बह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है । उस  
 ने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हलकी  
 सी बात जानकर सीदनियों के राजा एतबाल की बेटी  
 २२ ईजेबेल को ब्याहकर बाल देवता की उपासना और उस  
 २३ को दण्डवत् की । और उस ने बाल का एक भवन शोम-  
 रोन में बनाकर उस में बाल की एक वेदी बनाई । और  
 अहाब ने एक अशोरा भी बनाया बरन उस ने उन सब  
 इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उस से पहिले ये इस्रा-  
 २४ एल के परमेश्वर यहोवा को रिस दिलानेहारे काम किये ।  
 उस के दिनों में बेतेलवासी हीएल ने यरीहो को फिर  
 बसाया जब उस ने उस की नेव डाली तब उस का  
 जेठा पुत्र अवीराम मर गया और जब उस ने उस के  
 फाटक खड़े किये तब उस का लहुरा पुत्र सग्व मर  
 गया यह यहोवा के उस कहे के अनुसार हुआ जो उस  
 ने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहा था ॥

(एलियाह के काम का आरम्भ)

१७. और तिश्बी एलियाह जो गिलाद  
 के परदेश रहनेहारों में से था

उस ने अहाब से कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिस  
 के सम्मुख मैं हाजिर रहता हूँ उस के जीवन की सोह  
 इन बरसों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा और न ओस  
 २ पड़ेगी । तब यहोवा का यह वचन उस के पास पहुँचा कि,  
 ३ यहाँ से चल पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में  
 ४ जो यर्दन के साम्ने है छिप जा । उसी नाले का पानी  
 तू पिया कर और मैं ने काँवों को आशा दी है कि वे तुम्हें  
 ५ वहाँ खिलाएँ । यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन  
 ६ के साम्ने के करीत नाम नाले में जा रहा । और सबेरे और  
 साँझ को कीवे उस के पास रोटी और मांस लाया करते  
 ७ ये और वह नाले का पानी पीता था । कुछ दिन बीते पर  
 उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया ॥

(१) मूल में तेरे पासने पासने की ।

तब यहोवा का यह वचन उस के पास पहुँचा कि, ८  
 चल सीदान में के सारपत नगर को जाकर वहाँ रह ९  
 सुन मैं ने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलामे की आशा  
 दी है । सो वह चल दिया और सारपत को गया नगर १०  
 के फाटक के पास पहुँचकर उस ने क्या देखा कि एक  
 विधवा लकड़ी बीन रही है उस को बुलाकर उस ने कहा ११  
 किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ । वह उसे  
 ले आने को जा रही थी कि उस ने उसे पुकारके कहा  
 अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ ।  
 उस ने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सोह मेरे १२  
 पास एक भी रोटी नहीं है केवल घड़े में सुट्टी भर मैदा  
 और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं दो एक लकड़ी  
 बीनकर लिये जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के  
 लिये उसे पकाऊँ और हम उसे खाएँ फिर मर जाएँ । एलि- १३  
 १४ य्याह ने उस से कहा मत डर जाकर अपनी बात के अनु-  
 सार कर पर पहिले मेरे लिये एक छोटी सी रोटी बनाकर  
 मेरे पास ले आ फिर इस के पीछे अपने और अपने बेटे  
 के लिये बनाना । क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा १५  
 यों कहता है कि जब लो यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए  
 तब लो न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस  
 कुप्पी का तेल घट जाएगा । तब वह चली गई और १५  
 एलियाह के वचन के अनुसार किया तब से वह और  
 १६ लो और उस का घराना बहुत दिन लो खाते रहे । यहोवा  
 के उस वचन के अनुसार जो उस ने एलियाह के द्वारा  
 कहा था न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी  
 का तेल घट गया । इन बातों के पीछे उस लो का बेटा १७  
 जो घर की स्वामिनी थी सो रोगी हुआ और उस का रोग  
 यहाँ तक बढ़ा कि उस का साँस लेना बन्द हो गया । तब १८  
 वह एलियाह से कहने लगी हे परमेश्वर के जन मेरा  
 तुझ से क्या काम क्या तू इसलिये मेरे यहाँ आया है  
 कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो मेरे पाप का स्मरण  
 दिलाए । उस ने उस से कहा अपना बेटा मुझे दे तब १९  
 वह उसे उस की गोद से लेकर उस अटारी में ले गया जहाँ  
 वह आप रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया ।  
 तब उस ने यहोवा को पुकारके कहा हे मेरे परमेश्वर २०  
 यहोवा क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिस  
 के यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी बिपत्ति ले आया है ।  
 तब वह बालक पर तीन बार पसर गया और यहोवा को २१  
 पुकारके कहा हे मेरे परमेश्वर यहोवा इस बालक का  
 प्राण इस में फिर डाल दे । एलियाह की यह बात २२  
 यहोवा ने सुन ली सो बालक का प्राण उस में फिर आया  
 और वह जी उठ । तब एलियाह बालक को अटारी में २३

से नीचे धर में ले गया और एलिय्याह ने यह कहकर उस की माता के हाथ में सौंप दिया कि देख तेरा बेटा जीता है । श्री ने एलिय्याह से कहा अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुँह से निकलता है सो सच होता है ॥

(यहोवा की विजय और बाल का पराजय)

१८. बहुत दिनों के पीछे तीसरे बरस में

यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुँचा कि जाकर अपने आप को अहाब को २ दिखा और मैं भूमि पर मैंह बरसा दूँगा । तब एलिय्याह अपने आप को अहाब को दिखाने गया । उस समय ३ शोमरोन में अकाल मारी या । सो अहाब ने ओबद्याह ४ को जो उस के घराने के ऊपर था बुलवाया । ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ लौ मानता था कि जब ईजेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी तब ओबद्याह ने एक सौ नबियों को लेकर पचास पचास करके गुफाओं में छिपा रक्खा और अन्न जल देकर ५ पालता रहा । और अहाब ने ओबद्याह से कहा कि देश में जल के सब स्रोतों और सब नदियों के पास जा क्या जाने कि इतनी पास मिले कि घोड़ी और खच्चरों को ६ जीते बचा सकें और हमारे सब पशु न मर जाएं । और उन्होंने ने आपस में केश बाँटा कि उस में होकर चलें एक ७ ओर अहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला । ओबद्याह मार्ग में था कि एलिय्याह उस को मिला उसे चीन्हकर वह मुँह के बल गिरा और कहा हे मेरे प्रभु एलिय्याह ८ क्या तू है । उस ने कहा हाँ मैं ही हूँ जाकर अपने ९ स्वामी से कह कि एलिय्याह मिला है । उस ने कहा मैं ने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने १० के लिये अहाब के हाथ करना चाहता है । तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सोह कोई ऐसी जाति वा राज्य नहीं जिस में मेरे स्वामी ने तुझे हूँदने को न भेजा हो और जब उन लोगों ने कहा कि वह यहाँ नहीं है तब उस ने उस राज्य वा जाति को इस की किरिया ११ खिलाई कि एलिय्याह नहीं मिला । और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह मिला । १२ फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊँगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहाँ उठा ले जाएगा सो जब मैं जाकर अहाब को बताऊँगा और तू उसे न मिलेगा तब वह मुझे मार डालेगा पर मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ । १३ क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि अब ईजेबेल

यहोवा के नबियों को बात करती थी तब मैं ने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से एक सौ लेकर पचास पचास करके गुफाओं में छिपा रक्खे और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा । फिर अब तू कहता है जाकर १४ अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह मिला है । तब वह मुझे घात करेगा । एलिय्याह ने कहा सेनाओं का यहोवा १५ जिस के साम्हने मैं रहता हूँ उस के जीवन की सोह आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊँगा । तब ओबद्याह १६ अहाब से मिलने गया और उस को बता दिया सो अहाब एलिय्याह से मिलने चला । एलिय्याह को देखते १७ ही अहाब ने कहा हे इस्राएल के सतानेहारे क्या तू ही है । उस ने कहा मैं ने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया पर १८ तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है कि तुम यहोवा की आशाओं को टालकर बाल देवताओं के पीछे हो लिये । अब मेजकर सारे इस्राएल को और बाल के १९ साठे चार सौ नबियों और अशोरा के चार सौ नबियों को जो ईजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कर्म्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले । तब अहाब ने सारे इस्राएलियों में मेज २० कर नबियों को कर्म्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया । और २१ एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब लों दो विचारों में लटके रहोगे यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उस के पीछे हो लेओ और यदि बाल हो तो उस के पीछे हो लेओ लोगो ने उस के उत्तर में एक भी बात न कही । तब एलिय्याह ने लोगों से कहा यहोवा २२ के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी साठे चार सौ मनुष्य हैं । सो दो बछड़े लाकर हमें २३ दिये जाएं और वे एक अपने लिये चुन उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाएँ और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूँगा और कुछ आग न लगाऊँगा । तब तुम तो अपने देवता २४ से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा और श्री आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे तब सब लोग बोल उठे अच्छी बात । और एलिय्याह ने बाल के २५ नबियों से कहा पहिले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो क्योंकि तुम तो बहुत हो तब अपने देवता से प्रार्थना करना पर आग न लगाना । सो उन्होंने ने उस २६ बछड़े को जो उन्हें दिया गया लेकर तैयार किया और भोर से ले दोपहर लों वह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन हे बाल हमारी सुन पर न कोई शब्द न कोई उत्तर देनेहाग हुआ तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उकुलने कूदने लगे । दोपहर २७ को एलिय्याह ने यह कहकर उनका टट्टा किया कि कंचे

शब्द से पुकारो वह तो देवता है वह तो ध्यान लगाये  
 होगा वा कहीं गया वा यात्रा में होगा वा क्या जानिये  
 १८ सोता ही और उसे जगाना चाहिये । और उन्हें ने बड़े  
 शब्द से पुकार पुकारके अपनी रीति के अनुसार छुरियों  
 और बर्छियों से अपने अपने को यहां लों घायल किया  
 १९ कि लोहू छुहान हो गये । वे दोपहर के पीछे बरन भेंट  
 चढ़ाने के समय लों नबूवत करते रहे पर कोई शब्द सुन  
 न पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया न कान लगाया ।  
 २० तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ  
 और सब लोग उस के निकट आये तब उस ने यहोवा  
 २१ की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की । फिर  
 एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिस  
 के पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम  
 २२ इस्राएल होगा बारह पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से  
 यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उस के चारों  
 और इतना बड़ा एक गड़हा खोद दिया कि उस में दो  
 २३ सभ्या बीज समा सके । तब उस ने वेदी पर लकड़ी को  
 सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर धर  
 दिया और कहा चार घड़े पानी भरके होमबलि पशु और  
 २४ लकड़ी पर उरखे दो । तब उस ने कहा दूसरी बार  
 वैसा ही करो सो लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया  
 फिर उस ने कहा तीसरी बार करो सो लोगों ने तीसरी  
 २५ बार भी किया । और जल वेदी के चारों और बह गया  
 २६ और गड़हे को भी उस ने जल से भर दिया । फिर भेंट  
 चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने  
 लगा हे इब्राहीम इस्राएल और इस्राएल के परमेश्वर  
 यहोवा आज यह विदित हो कि इस्राएल में तू ही परमे-  
 २७ श्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैं ने ये सब काम तुझ  
 से वचन पाकर किये हैं । हे यहोवा मेरी सुन मेरी सुन कि  
 ये लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू  
 २८ ही उन का मन लौटा लेता है । तब यहोवा की आग  
 आकाश से पड़ी और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों  
 और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड़हे में का जल  
 २९ सुखा दिया । यह देख सब लोग मुंह के बल गिरके  
 बोल उठे यहांवा ही परमेश्वर है यहोवा ही परमेश्वर  
 ४० है । एलिय्याह ने उन से कहा बाल के नबियों को पकड़  
 लो उन में से एक भी छूटने न पाए सो उन्हें ने  
 उन को पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे  
 ४१ कीशोन के नाले में लो जाकर वहां मार डाला । फिर  
 एलिय्याह ने अहाब से कहा उठकर खा पी क्योंकि भारी  
 ४२ वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है । सो अहाब खाने  
 पीने चला गया और एलिय्याह कम्मेल की चौटी पर

चढ़ गया और भूमि पर गिर अपना मुंह छुटनों के बीच  
 किया । और उस ने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र ४३  
 की ओर तक सो उस ने चढ़कर ताका और लौटकर  
 कहा कुछ नहीं दीखता एलिय्याह ने कहा फिरके सात  
 बार जा । सातवीं बार उस ने कहा कि सुन समुद्र में ४४  
 से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है  
 एलिय्याह ने कहा अहाब के पास जाकर कह रथ छुतवा  
 कर नीचे जा न हो कि तू वर्षा से रुक जाए । थोड़ी ही ४५  
 बेर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और वायु से  
 काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब  
 सवार होकर यिज्जेल को चला । तब यहोवा की शक्ति ४६  
 एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब  
 के आगे आगे यिज्जेल लों दौड़ता गया ॥

(एलिय्याह का निराश होना और फिर हियाव बांधना)

१६. तब अहाब ने ईजेबेल को एलिय्याह  
 के सारे काम विस्तार से बताये

कि उस ने सब नबियों को तलवार से कैसे मार डाला ।  
 तब ईजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत से कहला १  
 मेजा कि यदि मैं कल इसी समय लों तेरा प्राण उन का  
 सा न करूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही बरन उस से भी २  
 अधिक करें । यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर ३  
 भागा और यहूदा में के बेशैबा को पहुंचकर अपना सेवक  
 वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन का मार्ग ४  
 जा एक झाड़ के पेड़ तले बैठ गया वहां उस ने यह कह  
 कर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा बस है अब मेरा ५  
 प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ ।  
 वह झाड़ के पेड़ तले लेटकर सो रहा था कि एक दूत ६  
 ने उसे छूकर कहा उठकर खो । उस ने दृष्टि करके क्या  
 देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और  
 एक सुराही पानी धरा है सो उस ने खाया और पिया ७  
 और फिर लेट गया । दूसरी बार यहोवा के दूत ने आ ८  
 उसे छूकर कहा उठकर खो क्योंकि तुम्हे बहुत भारी यात्रा  
 करना है । तब उस ने उठकर खाया पिया और उसी ९  
 भोजन से बल पाकर चालीस दिन रात लों चलते चलते  
 परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा । वहां वह एक गुफा १  
 में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उस के पास  
 पहुंचा कि हे एलिय्याह तेरा यहां क्या काम । उस ने १०  
 उत्तर दिया सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे  
 बड़ी जलन हुई है क्योंकि इस्राएलियों ने तेरा वाचा टाल  
 दी तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को  
 तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया

(१) मूल में का हाथ ।



- ११ हूँ और वे मेरे भी प्राण के खोजी हैं कि उसे हर लें । उस ने कहा निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो । और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के साम्हने एक बड़ी प्रचण्ड वायु से पहाड़ फटने और ढांग टूटने लगीं १२ ढोल हुआ तौभी यहोवा उस भुईंढोल में न था । फिर भुईंढोल के पीछे आग दिखाई दो तौभी यहोवा उस आग में न था फिर आग के पीछे एक दबा हुआ धीमा शब्द १३ सुनाई दिया । यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुँह चहर से ढापा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिय्याह तेरा यहां क्या १४ काम । उस ने कहा मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूँ और १५ वे मेरे भी प्राण के खोजी हैं कि उसे हर लें । यहोवा ने उस से कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां १६ पहुंचकर अराम का राजा होने के लिये हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिये अबेलमहोला के शापात १७ के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना । और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उस को येहू मार डालेगा और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उस को एलीशा १८ मार डालेगा । तौभी मैं सात हजार इस्राएलियों को बचा रखूंगा । ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे १९ घुटने टेके और न मुँह से उसे चूमा है । सो वह वहां से चला दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला जो बारह जोड़ी बैल अपने आगे किये हुए आप बारहवीं के साथ होकर हल जोत रहा था उस के पास जाकर २० एलिय्याह ने अपनी चहर उस पर डाल दी । तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा मुझे अपने माता पिता को चूमने दे तब मैं तेरे पीछे चलूंगा उस ने कहा लौट जा मैं ने तुम्ह से क्या २१ किया है । तब वह उस के पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किये और बैलों का सामान जलाकर उन का मांस पकाके अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने ने खाया तब वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला और उस की सेवा टहल करने लगा ॥

(अराभियों पर विजय)

२०. और अराम के राजा बेन्हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उस के साथ बत्तीस राजा और षोड्ढे और रथ थे

सो उन्हें संग लेकर उस ने शोमरोन पर चढ़ाई की और उसे बरके उस के विरुद्ध लड़ा । और उस ने नगर में इस्राएल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिये भेजा कि बेन्हदद तुम्ह से यों कहता है, कि तेरी चान्दी सेना मेरा है और तेरी स्त्रियों और लड़कियों में जो जो उत्तम हैं सो भी सब मेरे हैं । इस्राएल के राजा ने उस के पास कहला भेजा हे मेरे प्रभु हे राजा तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है । उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा बेन्हदद तुम्ह से यों कहता है कि मैं ने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुम्हें अपनी चान्दी सेना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे । पर कल इसी समय में अपने कर्मचारियों के तेरे पास भेजंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में दंड ढांड करेंगे और तेरी जो जो मनभावनी वस्तुएं निकलें सो वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे । तब इस्राएल के राजा के अपने देश के सब पुरनियों को बुलवाकर कहा सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है उस ने मुझ से मेरी स्त्रियां बालक चान्दी सेना मंगा भेजा और मैं ने नाह न की । तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उस से कहा उस की न सुनना और न मानना । सो राजा ने बेन्हदद के दूतों से कहा मेरे प्रभु राजा से मेरी और से कहो जो कुछ तू ने पहले अपने दास से चाहा था सो तो मैं करूंगा, पर यह मुझ से न होगा सो बेन्हदद के दूतों ने जाकर उसे यह उत्तर सुना दिया । तब बेन्हदद ने अहाब के पास कहला भेजा यदि शोमरोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलनेहारों की मुट्टी भर कर अटे तो देवता मेरे साथ ऐसा ही बरन इस से भी अधिक करें । इस्राएल के राजा ने उत्तर देकर कहा उस से कहो कि जो हथियार बांधता हो सो उस की नाई न फूले जो उन्हें उतारता हो । यह वचन सुनते ही वह जो और राजाओं समेत डेरों में पी रहा था उस ने अपने कर्मचारियों से कहा पाति बांधो सो उन्होंने ने नगर के विरुद्ध पाति बांधी । तब एक नबी ने इस्राएल के राजा अहाब के पास जाकर कहा यहोवा तुम्ह से यों कहता है यह बड़ी भीड़ जो तू ने देखी है उस सब को मैं आज तेरे हाथ कर दूंगा इस से तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ । अहाब ने पूछा किस के द्वारा उस ने कहा यहोवा यों कहता है कि प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा फिर उस ने पूछा युद्ध का कौन आरम्भ करे उस ने उत्तर दिया तू ही । तब उस ने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे दो सौ बत्तीस निकले और उन के

पीछे उस ने सब इस्त्राएली लोगों की गिनती ली और  
 १६ वे सात हजार हुए । ये दोपहर ३१ निकल गये उस समय  
 बेन्हदद अपने सहायक बन्तियों राजाओं समेत डेरों में  
 १७ दारू पीकर मतवाला हो रहा था । सो प्रदेशों के हाकिमों  
 के सेवक पहिले निकले तब बेन्हदद ने दूत भेजे और  
 १८ आते हैं । उस ने कहा चाहे वे मेल करने को निकले हों  
 १९ चाहे लड़ने को तौभी उन्हें जीते ही पकड़ लाओ । सो  
 प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उन के पीछे की सेना  
 २० के सिपाही नगर से निकले । और वे अपने अपने साम्हने के  
 पुरुष को मारने लगे और अरामी भागे और इस्त्राएल  
 उन के पीछे पड़ा और अराम का राजा बेन्हदद स्वार्थों  
 २१ के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया । तब  
 इस्त्राएल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को  
 २२ मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा । तब उस  
 नबी ने इस्त्राएल के राजा के पास जाकर कहा जाकर  
 लड़ाई के लिये आने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच  
 कि क्या करना है क्योंकि नये बरस के लगते ही अराम  
 का राजा फिर तुम्ह पर चढ़ाई करेगा ॥

२३ तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने उस से  
 कहा उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है इस कारण  
 वे हम पर प्रबल हुए सो हम उन से चौरस भूमि पर  
 २४ लड़ें तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे । और  
 यह भी काम कर अर्थात् सब राजाओं का पद ले ले  
 २५ और उन के स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे । फिर एक  
 और सेना अपने लिये गिन ले जो तेरी उस सेना के  
 बर बर हो जो नाश हो गई है घोड़े के बदले घोड़ा  
 और रथ के बदले रथ तब हम चौरस भूमि पर उन से  
 लड़ें और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे । उन की  
 २६ यह सम्मति मानकर बेन्हदद ने वैसा ही किया । और  
 नये बरस के लगते ही बेन्हदद ने अरामियों को इकट्ठा  
 किया और इस्त्राएल से लड़ने के लिये अपेक को गया ।  
 २७ और इस्त्राएली भी इकट्ठे किये गये और उन के भोजन  
 की तैयारी हुई तब वे उन का साम्हना करने को गये  
 और इस्त्राएली उन के साम्हने डेरे डालकर बकरियों के  
 दो छोटे मुण्ड से देख पड़े पर अरामियों से देश भर  
 २८ गया । तब परमेश्वर के उसी जन ने इस्त्राएल के राजा  
 के पास जाकर कहा यहोवा यों कहता है अरामियों ने  
 यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है पर नीची भूमि  
 का नहीं है इस कारण मैं उस सारा बड़ी भीड़ को तेरे  
 हाथ कर दूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ ।  
 २९ जब वे सात दिन साम्हने साम्हने डेरे डाले हुए रहे तब

सातवें दिन लड़ाई होने लगी और एक दिन में इस्त्रा-  
 एलियों ने एक लाख अरामी पियादे मार डाले । जो ३०  
 बच गये सो अपेक को भागकर नगर में घुसे और बहा  
 उन बचे हुए लोगों में से सत्ताईस हजार पुरुष शहरपनाह  
 के गिरने से दब मरे । बेन्हदद भी भाग गया और नगर  
 की एक भीतरी कोठरी में गया । तब उस के कर्मचारियों ३१  
 ने उस से कहा सुन हम ने तो सुना है कि इस्त्राएल के  
 घराने के राजा दयालु राजा होते हैं सो हमें कमर में  
 टाट और सिर पर रस्सियां बांधे इस्त्राएल के राजा के  
 पास जाने दे क्या जाने वह तेरा प्राण बचाए । सो वे ३२  
 कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांध इस्त्राएल के  
 राजा के पास जाकर कहने लगे तेरा दास बेन्हदद तुम्ह  
 से कहता है मेरा प्राण छोड़ । राजा ने उत्तर दिया क्या  
 वह अब लों जीता है वह तो मेरा भाई है । उन लोगों ३३  
 ने शकुन जानकर फुर्ती से बूम लेने का यत्न किया कि  
 वह उस के मन की बात है कि नहीं और कहा हां तेरा  
 भाई बेन्हदद । राजा ने कहा जाकर उस को ले आओ  
 सो बेन्हदद उस के पास निकल आया और उस ने उसे  
 अपने रथ पर चढ़ा लिया । तब बेन्हदद ने उस से कहा ३४  
 जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिये वे उन को  
 मैं फेर दूंगा और जैसे मेरे पिता ने शोमरोन में अपने  
 लिये सड़कें बनवाईं वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना  
 अहाब ने कहा मैं इसी वाचा पर तुम्हें छोड़ देता हूँ तब  
 उस ने बेन्हदद से वाचा बांधकर उसे छोड़ दिया ॥

इस के पीछे नबियों के चेलों में से एक जन ने ३५  
 यहोवा से बचन पाकर अपने संगी से कहा मुझे मार जब  
 उस मनुष्य ने उसे मारने से नाह की, तब उस ने उस ३६  
 से कहा तू ने यहोवा का बचन नहीं माना इस कारण  
 सुन ज्योंही तू मेरे पास से चला जाएगा त्योंही सिंह से  
 मार डाला जाएगा । सो ज्योंही वह उस के पास से चला  
 गया त्योंही उसे एक सिंह मिला और उस को मार डाला ।  
 फिर उस को दूसरा मनुष्य मिला और उस से भी उस ३७  
 ने कहा मुझे मार और उस ने उस को ऐसा मारा कि  
 वह थायल हुआ । तब वह नहीं चला गया और आंखों ३८  
 को पगड़ी से ढांपकर राजा की बाट जोहता हुआ मार्ग  
 पर लड़ा रहा । जब राजा पास हीकर जा रहा था तब ३९  
 उस ने उस की दोहाई देकर कहा जब तेरा दास मुझ  
 के बीच गया था तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर  
 किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझ से कहा  
 इस मनुष्य को चौकसी कर यदि यह किसी रीति छूट  
 जाए तो उस के प्राण के बदले तुम्हें अपना प्राण देना  
 होगा नहीं तो किस्कार भर चान्दी देना पड़ेगा । पीछे ४०

तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया फिर वह न मिला ।  
इस्त्राएल के राजा ने उस से कहा तेरा ऐसा ही न्याय होगा  
४१ तू ने आप अपना न्याय किया है । नबी ने झूठ अपनी  
आंखों से पगड़ी उठाई तब इस्त्राएल के राजा ने उसे चीन्हे  
४२ लिया कि यह कोई नबी है । तब उस ने राजा से कहा  
यहोवा तुझ से यों कहता है इसलिये कि तू ने अपने हाथ  
से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैं ने सत्यानाश  
हो जाने को ठहराया था<sup>१</sup> तुझे उस के प्राण की सन्ती  
अपना प्राण और उस की प्रजा की सन्ती अपनी प्रजा  
४३ देनी पड़ेगी । तब इस्त्राएल का राजा उदास और अन-  
मना होकर घर की ओर चला और शोमरोन को आया ॥  
(नाबोत की हत्या और ईश्वर का कोप)

## २१. नाबोत नाम एक यिज्जेली की एक

दाख की बारी शोमरोन के

१ राजा अहाब के राजमन्दिर के पास यिज्जेल में थी । इन  
बातों के पीछे अहाब ने नाबोत से कहा तेरी दाख की  
बारी मेरे घर के पास है सो उसे मुझे दे कि मैं उस में  
साग पात की बारी लगाऊँ और मैं उस के बदले तुझे  
उस से अच्छी एक बारी दूँगा नहीं तो तेरी इच्छा हो मैं  
३ तुझे उस का मोल दे दूँगा । नाबोत ने अहाब से कहा  
यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग  
४ तुझे दूँ । यिज्जेली नाबोत के इस वचन के कारण कि  
मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूँगा अहाब  
उदास और अनमना होकर अपने घर गया और बिछौने  
पर लेट गया और मुँह फेर लिया और कुछ भोजन न  
५ किया । तब उस की स्त्री ईजेबेल ने उस के पास आकर  
पूछा तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं  
६ करता । उस ने कहा कारण यह है कि मैं ने यिज्जेली  
नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की  
बारी दे नहीं तो यदि तुझे भाए तो मैं उस की सन्ती  
दूसरी दाख की बारी दूँगा और उस ने कहा मैं अपनी  
७ दाख की बारी तुझे न दूँगा । उस की स्त्री ईजेबेल ने  
उस से कहा क्या तू इस्त्राएल पर राज्य करता है कि  
नहीं उठकर भोजन कर और तेरा मन आनन्दित होए  
यिज्जेली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलावा दूँगी ।  
८ तब उस ने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उस की  
अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के  
पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते  
९ थे । उस चिट्ठी में उस ने यों लिखा कि उपवास का प्रचार  
करो और नाबोत को लोगों के साम्हने ऊँचे स्थान पर  
१० बैठाना । तब दो ओछे जनों को उस के साम्हने बैठाना

(१) मूल में मेरे सत्यानाश के मनुष्य को हाथ से जाने दिया ।

जो साक्षी देकर उस से कहें तू ने परमेश्वर और राजा  
दोनों की निन्दा की<sup>२</sup> तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर  
उस को पत्थरबाह करना कि वह मर जाए । ईजेबेल ११  
चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार करके नगर में रहनेहारे  
पुरनियों और रईसों ने, उम्बास का प्रचार किया और १२  
नाबोत को लोगों के साम्हने ऊँचे स्थान पर बैठाया ।  
तब दो ओछे जन आकर उस के सम्मुख बैठ गये और १३  
उन ओछे जनों ने लोगों के साम्हने नाबोत के विरुद्ध  
यह साक्षी दी कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों  
की निन्दा की<sup>२</sup> इस पर उन्होंने उसे नगर के बाहर ले  
जाकर उस को पत्थरबाह किया और वह मर गया । तब १४  
उन्होंने ईजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत  
पत्थरबाह करके मार डाला गया है । यह सुनते ही कि १५  
नाबोत पत्थरबाह करके मार डाला गया है ईजेबेल ने  
अहाब से कहा उठकर यिज्जेली नाबोत की दाख की  
बारी को जिसे वह तुझे रुपया लेकर देने से नट गया था  
अपने अधिकार में ले क्योंकि नाबोत जीता नहीं वह मर  
गया है । यिज्जेली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते १६  
ही अहाब उस की दाख की बारी अपने अधिकार में  
लेने के लिये वहां जाने को उठा ॥

तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास १७  
पहुँचा कि, चल शोमरोन में रहनेहारे इस्त्राएल के राजा १८  
अहाब से मिलने को जा वह तो नाबोत की दाख की  
बारी में है उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां  
गया है । और उस से यह कहना कि यहोवा यों कहता १९  
है कि क्या तू ने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा  
फिर तू उस से यह भी कहना कि यहोवा यों कहता है  
कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लोहू चाटा उसी  
स्थान पर कुत्ते तेरा भी लोहू चाटेंगे । एलिय्याह के २०  
देखकर अहाब ने कहा हे मेरे शत्रु क्या तू ने मेरा पता  
लगाया है उस ने कहा हां लगाया तो है और इस का  
कारण यह है कि जो यहोवा के लेखे बुरा है उसे करने  
के लिये तू ने अपन को बेच डाला है । मैं तुझ पर २१  
ऐसी विपत्ति डालूँगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूँगा  
और अहाब के घर के हर एक लड़के को और क्या  
बन्धुए क्या स्वाधीन इस्त्राएल में हर एक रहनेहारे को  
भी नाश कर डालूँगा । और मैं तेरा घराना नाबोत के २२  
पुत्र यारोबाम और अहिय्याह के पुत्र बाशा का सा कर  
दूँगा इसलिये कि तू ने मुझे रिस दिलाई और  
इस्त्राएल से पाप कराया है । और ईजेबेल के विषय २३  
यहोवा यह कहता है कि यिज्जेल के धुस के पास

(२) मूल में दोनों को बिदा किया ।

२४ कुत्त ईजेबेल को खा डालेंगे । अहाब का जो कोई नगर में मर जाए उस को कुत्ते खा लेंगे और जो कोई मैदान में मर जाए उस को आकाश के पक्षी खा जायेंगे । सब-सुच अहाब के तुल्य और कोई न था जो अपनी स्त्री ईजेबेल के उसकाने से वह करने को जो यहोवा के लेखे २६ बुरा है अपने को बेच डाला है । वह तो उन एमेरियों की नाई जिन को यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से देश से निकाला था बहुत ही धिनौने काम करता था २७ अर्थात् मूरतों के पीछे चलता था । एलिय्याह के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही आंढे पड़ा रहने २८ और दबे पांवों चलने लगा । और यहोवा का यह वचन २९ तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा कि, क्या तू ने देखा है कि अहाब मेरे साम्हने दबा रहता है सो इस कारण कि वह मेरे साम्हने दबा रहता है मैं वह विपत्ति उस के जीते जी न डालूंगा उस के पुत्र के दिनों में मैं उस के घराने पर वह विपत्ति डालूंगा ॥

(अहाब की मृत्यु)

## २२. अरामो और इस्राएली तीन बरस लों आपस में बिन लड़े रह ।

१ तब तीसरे बरस में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के यहां गया । तब इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा क्या तुम को मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते । ४ और उस ने यहोशापात से पूछा क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिये जाएगा यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया जैसा तू बैसा मैं भी हूँ जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा और जैसे तेरे बोड़े ५ वैसे मेरे भी घोड़े हैं । फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा कि आज यहोवा की आज्ञा ले । सो इस्राएल के राजा ने नबियों को जो कोई चार सौ पुरुष थे इकट्ठा करके उन से पूछा क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के चढ़ाई करूं वा रुका रहूँ उन्हों ने उत्तर दिया चढ़ाई कर क्योंकि प्रभु उस को राजा के हाथ कर ७ देगा । पर यहोशापात ने पूछा क्या यहां यहोवा का ८ और भी कोई नबी नहीं है जिस से हम पूछ लें । इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा हां यिम्ला का पुत्र मीकायाह एक पुरुष और है जिस के द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं पर मैं उस से बिन रखता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत ९ करता है । यहोशापात ने कहा राजा ऐसा न कहे । तब

इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा यिम्ला के पुत्र मीकायाह को कुर्तों से ले आ । इस्राएल का १० राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजबख पहिने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराज रहे थे और सब नबी उन के साम्हने नबूवत कर रहे थे । तब कनाना के ११ पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा यहोवा यों कहता है कि इन से तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा । और सब नबियों ने इसी आशय की १२ नबूवत करके कहा गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा । और जो दूत मीकायाह को बुलाने गया था उस १३ ने उस से कहा सुन नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं सो तेरी बातें उन की सी हों तू भी शुभ वचन कहना । मीकायाह ने कहा यहोवा के १४ जीवन की सोह जां कुछ यहोवा मुझ से कहे सोई मैं कहूंगा । जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उस १५ से पूछा हे मीकायाह क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिये चढ़ाई करें वा रुके रहें उस ने उस को उत्तर दिया हां चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उस को राजा के हाथ कर दे । राजा ने उस से कहा मुझे १६ कितनी बार तुझे किरिया धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझ से सच ही कह । मीका- १७ याह ने कहा मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तित्तर बित्तर देख पड़ा और यहोवा का यह वचन आया कि वे तो अनाथ हैं सो अपने अपने घर कुशलक्षेम से लौट जाएं । तब इस्राएल १८ के राजा ने यहोशापात से कहा क्या मैं ने तुझ से न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा । मीकायाह ने कहा इस कारण तू १९ यहोवा का यह वचन सुन मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उस के पास दहिने बाये खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना देख पड़ी । तब यहोवा ने पूछा अहाब को २० कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा । निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के २१ सम्मुख खड़ा हुआ और कहने लगा मैं उस को बहकाऊंगा यहोवा ने पूछा किस उपाय से । उस ने कहा मैं २२ जाकर उस के सब नबियों में पैठकर उन से भूठ बुलवाऊंगा यहोवा ने कहा तेरा उस को बहकाना सुफल होगा जाकर ऐसा ही कर । सो अब सुन यहोवा ने तेरे २३

(१) मूल में भूठ आत्मा हूंगा ।

- इन सब नवियों के मुँह में एक झूठ बोलनेद्वारा आत्मा पैठायी है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की कही है ।
- ३४ तब कनाना के पुत्र सिदकियाह ने मीकायाह के निकट जा उस के गाल पर थपेड़ा मारके पूछा यहोवा का आत्मा
- ३५ मुझे छोड़कर तुझ से बातें करने को किधर गया । मीकायाह ने कहा जिस दिन तू छिपने के लिये कोठरी से
- ३६ कोठरी में भागेगा तब जानेगा । इस पर इस्राएल के राजा ने कहा मीकायाह को नगर के हाकिम आमोन
- ३७ और योआश राजकुमार के पास लौटा कर, उन से कह राजा यों कहता है कि इस को बन्दीरह में डालो और जब लों मैं कुशल से न आऊँ तब लों इसे दुख की रोटी
- ३८ और पानी दिया करो । और मीकायाह ने कहा यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा । फिर उस ने कहा हे देश देश के लोगो तुम सब के सब मुन रक्खो ॥
- ३९ तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की । और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा मैं तो भेष बदलकर लड़ाई में जाऊँगा पर तू अपने ही वस्त्र पहिने रह सो इस्राएल का राजा भेष बदल कर लड़ाई में गया ।
- ४१ और अराम के राजा ने तो अपने रथों के बत्तीसों प्रधानों को आशा दी थी कि न तो छोटे से लड़े न बड़े से केवल इस्राएल के राजा से लड़े । सो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा निश्चय इस्राएल का राजा वही है और वे उसी से लड़ने को मुड़े
- ४३ सो यहोशापात चिल्ला उठा । यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है रथों के प्रधान उस का पीछा छोड़कर
- ४४ लौट गये । तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के भित्तम और निचले वस्त्र के बीच छेदकर लगा सो उस ने अपने सारथी से कहा मैं घायल हुआ सो बाग फेरके मुझे सेना में से बाहर
- ४५ ले चल । और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और साँभ को मर गया और उस के घाव का लोहू
- ४६ बहकर रथ के पैदान में भर गया । सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई कि हर एक अपने नगर और अपने
- ४७ देश को लौट जाए । जब राजा मर गया तब शोमरोन को पहुंचाया गया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई । और यहोवा के वचन के अनुसार जब उस का रथ शोमरोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उस का लोहू चाट
- ४९ लिया और बेश्याएँ नहा रही थीं । अहाब के और सब
- (२) मूल में अपना हाथ ।

काम जो उस ने किये और हाथीदांत का जो भवन उस ने बनाया और जो जो नगर उस ने बसाये यह सब क्या इस्राएली राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है । निदान अहाब अपने पुरखाओं के संग सोया ४० और उस का पुत्र अहज्याह उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(यहोशापात का राज्य)

इस्राएल के राजा अहाब के चौथे बरस में आसा ४१ का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राजा हुआ । जब यहोशापात राज्य करने लगा तब वह पैंतीस बरस का था और पच्चीस बरस लों यरूशलेम में राज्य करता रहा और उस की माता का नाम अजूबा था जो शिल्ही की बेटी थी । और उस की चाल सब प्रकार से उस के पिता ४२ आसा की सी थी अर्थात् जो यहोवा के लोखे ठीक है सोई वह करता रहा और उस से कुछ न मुड़ा । तौभी ऊँचे स्थान दाने न गये प्रजा के लोग ऊँचे स्थानों पर तब भी बलि किया और धूप जलाया करते थे । यहोशापात ने इस्राएल के राजा से मेल किया । और यहोशापात के काम और जो बीरता उस ने दिखाई और उस ने जो जो लड़ाइयाँ की यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है । पुरुषगामियों ४३ में से जो उस के पिता आसा के दिनों में रह गये थे उन को उस ने देश में से नाश किया । उस समय एदोम में ४७ कोई राजा न था एक नाइब राज्य का काम करता था । फिर यहोशापात ने तर्शाश के जहाज सेना लाने के लिये ओपीर जाने को बनवा लिये पर वे एश्वोनगेबेर में टूट गये सो वहाँ न जा सके । तब अहाब के पुत्र अहज्याह ४९ ने यहोशापात से कहा मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दे पर यहोशापात ने नाह कर दी । निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सोया ५० और उस को उस के पुरखाओं के बीच उस के मूलपुरुष दाऊद के पुर में मिट्टी दी गई और उस का पुत्र यहोशम उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(अहज्याह का राज्य)

यहूदा के राजा यहोशापात के सत्रहवें बरस में अहाब का पुत्र अहज्याह शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और दो बरस लों इस्राएल पर राज्य करता रहा । और उस ने वह किया जो यहोवा के ५१ लोखे बुरा है और उस की चाल उस के माता पिता और नबात के पुत्र यारोबाम की सी थी जिस ने इस्राएल से पाप कराया था । जैसे उस का पिता बाल की उपासना और ५३ उसे दण्डवत् करने से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को रिस दिलाता रहा वैसे ही अहज्याह भी करता रहा ॥

# राजाओं के वृत्तान्त का दूसरा भाग ।

(अहज्याह की मृत्यु)

१. अहज्याह के मरने के पीछे भीष्माक्ष  
इसाएल से फिर गया । और  
अहज्याह एक भिलमिलीदार खिड़की में से जो शोमरोन  
में उस की अटारी में थी गिर पड़ा और पीड़ित हुआ सो  
उस ने दूतों को यह कह कर भेजा कि तुम जाकर एक्रोन के  
बालजबूब नाम देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस  
३ पीड़ा से बचूंगा कि नहीं । तब यहोवा के दूत ने तिशबी  
एलिय्याह से कहा उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से  
मिलने को जा और उन से कह क्या इसाएल में कोई  
परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से  
४ पूछने जाते हो । सो यहोवा तुम्हें से यों कहता है कि  
जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा मर  
५ ही जाएगा सो एलिय्याह चला गया । जब अहज्याह के  
दूत उस के पास लौट आये तब उस ने उन से पूछा तुम  
६ क्यों लौट आये हो । उन्होंने ने उस से कहा कि एक मनुष्य  
हम से मिलने का आया और कहा कि जिस राजा ने तुम को  
भेजा उस के पास लौटकर कहो यहोवा यों कहता है  
कि क्या इसाएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के  
बालजबूब देवता से पूछने का भेजता है इस कारण  
जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा मर  
७ ही जाएगा । उस ने उन से पूछा जो मनुष्य तुम से  
मिलने को आया और तुम से ये बातें कहीं उस का कैसा  
८ ढंग था । उन्होंने ने उस को उत्तर दिया वह तो रोमर  
मनुष्य और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बाँधे हुए था  
९ उस ने कहा वह तिशबी एलिय्याह होगा । तब उस ने  
उस के पास पचास सिपाहियों के एक प्रधान को उस के  
पचासों सिपाहियों समेत भेजा । प्रधान ने उस के पास जाकर  
क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है । और  
उस ने उस से कहा हे परमेश्वर के जन राजा ने कहा है  
१० कि उतर आ । एलिय्याह ने उस पचास सिपाहियों के प्रधान  
से कहा यदि मैं परमेश्वर का जन हूँ तो आकाश से आग  
गिरकर तुम्हें तेरे पचासों समेत भस्म कर डाले । तब  
आकाश से आग गिरी और उस से वह अपने पचासों  
११ समेत भस्म हो गया । फिर राजा ने उस के पास पचास  
सिपाहियों के एक और प्रधान को पचासों सिपाहियों समेत

(१) अर्थात् मन्त्रियों का नाथ ।

भेज दिया । प्रधान ने उस से कहा हे परमेश्वर के जन  
राजा ने कहा है कि कुर्ती से उतर आ । एलिय्याह ने १२  
उत्तर देकर उन से कहा यदि मैं परमेश्वर का जन हूँ तो  
आकाश से आग गिर के तुम्हें तेरे पचासों समेत भस्म  
कर डाले तब आकाश से परमेश्वर की आग गिरी और  
उस से वह अपने पचासों समेत भस्म हो गया । फिर १३  
राजा ने तीसरी बार पचास सिपाहियों के एक और प्रधान  
को पचासों सिपाहियों समेत भेज दिया और पचास का वह  
तीसरा प्रधान चढ़कर इलिय्याह के साम्हने घुटनों के  
बल गिरा और गिड़गिड़ाहट के साथ उस से कहने लगा  
हे परमेश्वर के जन मेरा प्राण और तेरे इन पचास दासों  
के प्राण तेरे लेखे अनमोल ठहरे । पचास पचास सिपाहियों १४  
के जो दो प्रधान अपने अपने पचासों समेत पहिले आये थे  
उन को तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला  
पर अब मेरा प्राण तेरे लेखे अनमोल ठहरे । तब यहोवा १५  
के दूत ने एलिय्याह से कहा उस के संग नीचे जा उस से  
भत डर तब एलिय्याह उठकर उस के संग राजा के पास  
नीचे गया, और उस से कहा यहोवा यों कहता है कि १६  
तू ने तो एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को दूत  
भेजे सो क्या इसाएल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिस  
से तू पूछ सके इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस  
पर से कभी न उठेगा मर ही जाएगा । यहोवा के इस १७  
वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह मर  
गया । और उस के निपुत्र होने के कारण योराम उस के  
स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के  
दूसरे बरस में राजा हुआ । अहज्याह के और काम जो १८  
उस ने किये सो क्या इसाएल के राजाओं के इतिहास  
की पुस्तक में नहीं लिखे हैं ॥

(एलिय्याह का स्वर्गारोहण)

२. जब यहोवा एलिय्याह को बर्बडर के  
द्वारा स्वर्ग में उठा लेने का था तब  
एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से  
चले । एलिय्याह ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे बेटेल २  
तक भेजता है सो तू यहीं ठहरा रह एलीशा ने कहा  
यहोवा के और तेरे जीवन की सोह मैं तुम्हें नहीं छोड़ने  
का सो वे बेटेल का चले गये । और बेटेलवासी नभियों ३  
के चले एलीशा के पास आकर कहने लगे क्या तुम्हें

मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है उस ने कहा हां मुझे भी यह मालूम है ४ तुम चुप रहो । और एलिव्याह ने उस से कहा हे एलीशा यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है सो तू यहीं ठहरा रह उस ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की सोह में तुम्हें ५ नहीं छोड़ने का सो वे यरीहो को आये । और यरीहोवासी नबियों के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे क्या तुम्हें मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है उस ने उत्तर दिया हां मुझे भी ६ मालूम है तुम चुप रहो । फिर एलिव्याह ने उस से कहा यहोवा मुझे यर्दन तक भेजता है सो तू यहीं ठहरा रह उस ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की सोह में ७ तुम्हें नहीं छोड़ने का सो वे दोनों आगे चले । और नबियों के चेलेों में से पचास जन जाकर उन के साम्हने दूर खड़े हुए और वे दोनों यर्दन के तीर खड़े हुए । ८ तब एलिव्याह ने अपनी चहर पकड़कर एँठ ली और जल पर मारी तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और ९ वे दोनों स्थल ही स्थल पार गये । उन के पार पहुँचने पर एलिव्याह ने एलीशा से कहा उस से पहिले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊँ जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिखे करुँ सो मांग एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा १० है उस में से दूना भाग मुझे मिल जाए । एलिव्याह ने कहा तू ने कठिन बात मांगी है तोभी यदि तू मुझे उठा लिये जाने के पीछे देखने पाए तो तेरे लिये ऐसा ही ११ होगा नहीं तो न होगा । वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उन को अलग अलग किया और एलिव्याह बवंडर में १२ होकर स्वर्ग पर चढ़ गया । और इसे एलीशा देखता और पुकारता रहा कि हाथ मेरे पिता हाथ मेरे पिता हाथ इस्राएल के रथ और सवारो । जब वह उस को फिर देख न पड़ा तब उस ने अपने बख्त पकड़े और फाँदकर १३ दो भाग कर दिये । फिर उस ने एलिव्याह की चहर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और १४ यर्दन के तीर पर खड़ा हो, एलिव्याह की वह चहर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा एलिव्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है । जब उस ने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हुआ और १५ एलीशा पार गया । उसे देखकर नबियों के चेले जो यरीहो में उस के साम्हने थे कहने लगे एलिव्याह में जो आत्मा था वही एलीशा पर उतर गया है सो उन्होंने ने उस से मिलने को जाकर उस के साम्हने भूमि लों १६ मुककर दण्डवत् की । तब उन्हो ने उस से कहा सुन तेरे

दासों के पास पचास बलवान पुरुष हैं वे जाकर तेरे स्वामी को ढूँढ़ें क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उस को उठकर किसी पहाड़ पर वा किसी तराई में डाल दिया हो उस ने कहा मत मेजो । जब उन्हो ने उस को दबाते दबाते १७ निरुत्तर कर दिया तब उस ने कहा मेज दो सो उन्हो ने पचास पुरुष भेज दिये और वे उसे तीन दिन ढूँढ़ते रहे पर न पाया । तब लों वह यरीहो में ठहरा रहा सो जब १८ वे उस के पास लौट आये तब उस ने उन से कहा क्या मैं ने तुम से न कहा था मत जाओ ॥

(एलीशा के दो आरच्य कर्म)

उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा देख यह १९ नगर मनभावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है पर पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिरानेहारी है । उस २० ने कहा एक नई थाली में लोन डालकर मेरे पास ले आओ । जब वे उसे उस के पास ले आये तब वह जल २१ के सोते के पास निकल गया और उस में लोन डालकर कहा यहोवा यों कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ सो वह फिर कभी मृत्यु वा गर्भ गिरने का कारण न होगा । एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक २२ हो गया और आज लों ऐसा ही है ॥

वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई २३ में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उस का उठ्टा करके कहने लगे हे चन्दुए चढ़ जा हे चन्दुए चढ़ जा । तब उस ने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि २४ की और यहोवा के नाम से उन को स्राप दिया तब बन में से दो रीछिनियों ने निकलकर उन में से बयालीस लड़के फाड़ डाले । वहाँ से वह कर्मेल को गया और २५ फिर वहाँ से शोमरोन को लौट गया ॥

(यहोराम के राज्य का आरम्भ)

### ३. यहूदा के राजा यहोशापात के अठा-

रहवें बरस में अहाब का पुत्र यहोराम शोमरोम में राज्य करने लगा और बारह बरस लों राज्य करता रहा । उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे २ बुरा है तोभी उस ने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया बरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ का दूर किया । तो भी वह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे ३ पापों में जैसे उस ने इस्राएल से भी कराये लिपटा रहा और उन से न फिरा ॥

(सोभाव पर विजय)

सोभाव का राजा मेशा बहुत सी मेड़ बकरियाँ रखता ४ था और इस्राएल के राजा को एक लाख बन्चे और एक लाख मेड़े कर की रीति से दिया करता था । जब अहाब ५

मर गया तब मोआब के राजा ने इस्राएल के राजा से  
 ६ बलवा किया । उस समय राजा यहोराम ने शोमरोन से  
 ७ निकलकर सारे इस्राएल की गिनती ली । और उस ने  
 जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यों कहला  
 मेजा कि मोआब के राजा ने मुझ से बलवा किया है  
 क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा उस ने कहा  
 हाँ मैं चलूँगा जैसा तू वैसा मैं जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी  
 ८ प्रजा और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े हैं । फिर उस ने  
 पूछा हम किस मार्ग से जाएँ उस ने उत्तर दिया एदोम के  
 ९ जंगल होकर । सो इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा  
 और एदोम का राजा चले और जब सात दिन लों घूम-  
 कर चल चुके तब सेना और उस के पीछे पीछे चलनेवाले  
 १० पशुओं के लिये कुछ पानी नहीं मिला । और इस्राएल  
 के राजा ने कहा हाथ यहोवा ने इन तीन राजाओं को  
 इसलिये इकट्ठा किया कि उन को मोआब के हाथ कर  
 ११ दे । पर यहोशापात ने कहा क्या यहाँ यहोवा का कोई  
 नबी नहीं है जिस के द्वारा हम यहोवा से पूछें इस्राएल  
 के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा हा  
 १२ शापात का पुत्र एलीशा जो एलिव्याह के हाथों को  
 धुलाया करता था वह तो यहाँ है । तब यहोशापात ने  
 कहा उस के पास यहोवा का वचन पहुँचा करता है । सो  
 इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का  
 १३ राजा उस के पास गये । तब एलीशा ने इस्राएल के राजा  
 से कहा मेरा तुझ से क्या काम है अपने पिता के नबियों  
 और अपनी माता के नबियों के पास जा इस्राएल के  
 राजा ने उस से कहा ऐसा न कह क्योंकि यहोवा ने इन  
 तीनों राजाओं को इसलिये इकट्ठा किया कि इन को  
 १४ मोआब के हाथ में कर दे । एलीशा ने कहा सेनाओं का  
 यहोवा जिस के सन्मुख मैं हाजिर रहा करता हूँ उस के  
 जीवन की सोह यदि यहूदा के राजा यहोशापात का आदर  
 मान न करता तो मैं न तो तेरी और मुंह करता और  
 १५ न तुझ पर दृष्टि करता । अब कोई बजानेहारा मेरे पास  
 ले आओ । जब बजानेहारा बजाने लगा तब यहोवा की  
 १६ शक्ति एलीशा पर हुई, और उस ने कहा इस नाते में  
 तुम लोग इतना खोदो कि इस में गड़हे ही गड़हे हो जाएँ ।  
 १७ क्योंकि यहोवा यों कहता है कि तुम्हारे साम्हने न तो  
 वायु चलेगी और न वर्षा होगी तोभी यह नाला पानी से  
 भर जाएगा और अपने गाय बैलों और और पशुओं  
 १८ समेत तुम पीने पाओगे । और इस को हलकी सी बात  
 जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर  
 १९ देगा । तब तुम सब गड़वाले और उत्तम नगरों को नाश

(१) मूल में हाथ ।

करना और सब अच्छे वृत्तों को काट डालना और जल  
 के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर  
 फेंककर उन्हें बिगाड़ देना । बिहान को अन्नबलि चढ़ाने २०  
 के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश  
 जल से भर गया । यह सुनकर कि राजाओं ने हम से २१  
 लड़ने को चढ़ाई की है जितने मोआबियों की अबस्था  
 हाथियार बांधने के योग्य थी सो सब बुलाकर इकट्ठे किये  
 गये और सिवाने पर खड़े हुए । बिहान को जब वे सबेरे २२  
 उठे उस समय सूर्य की किरणों उस जल पर ऐसी पड़ीं  
 कि वह मोआबियों को परती ओर से लोहू सा लाल देख  
 पड़ा । सो वे कहने लगे वह तो लोहू हीगा निःसन्देह वे २३  
 राजा एक दूसरे को मारके नाश हो गये हैं सो अब हे  
 मोआबियों लूट लेने को जाओ । वे इस्राएल की छावनी २४  
 के पास आये ही ये कि इस्राएली उठकर मोआबियों को  
 मारने लगे और वे उन से भाग गये और वे मोआब  
 को मारते मारते उन के देश में पहुँच गये । और उन्हीं २५  
 ने नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक  
 पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और  
 जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे  
 वृत्तों को काट डाला यहाँ तक कि कीर्देशेत के पत्थर  
 तो रह गये पर उस को भी चारों ओर गोंफन चलाने-  
 हारों ने जाकर उस को मारा । यह देखकर कि हम युद्ध २६  
 में हार चले मोआब के राजा ने सात सौ तलवार रखने-  
 वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति भेदकर  
 पहुँचने का यत्न किया पर पहुँच न सका । तब उस ने २७  
 अपने जेठे बेटे को जो उस के स्थान में राज्य करनेवाला  
 था पकड़कर शहरपनाह पर होमबलि चढ़ाया इस से  
 इस्राएल पर बड़ा ही कोप हुआ सो वे उसे छोड़कर  
 अपने देश को लौट गये ॥

(एलीशा के चार आश्चर्य कर्मों)

## ४. नबियों के चेलों की स्त्रियों में से एक

र्जा ने एलीशा की दोहाई देकर  
 कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता  
 है कि वह यहोवा का भय माननेहारा था और उस का  
 व्यवहारिया मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिये  
 आया है । एलीशा ने उस से पूछा मैं तेरे लिये क्या करूँ २  
 मुझ से कह कि तेरे घर में क्या है उस ने कहा तेरी दासी  
 के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है ।  
 उस ने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से कुछे ३  
 बरतन मांग ले आ और थोड़े नहीं । फिर तू अपने बेटों ४  
 समेत अपने घर में जा और द्वार बन्द करके उन सब

(२) मूल में उस में ।



५ बरतनों में तेल उगडेल देना और जो भर जाए उन्हें  
 अलग रखना । तब वह उस के पास से चली गई और  
 अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बन्द किया तब  
 वे तो उस के पास बरतन ले आते गये और वह उगडेलती  
 ६ गई । जब बरतन भर गये तब उस ने अपने बेटे से कहा  
 मेरे पास एक और भी ले आ उस ने उस से कहा और  
 ७ बरतन तो नहीं रहा । तब तेल थम गया । तब उस ने  
 जाकर परमेश्वर के जन को यह बता दिया और उस ने  
 कहा जा तेल बेचकर श्रृणु भर दे और जो रह जाए  
 उस से तू अपने बेटों सहित अपना निर्वाह करना ॥  
 ८ फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को  
 गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उस ने उसे रोटी  
 खाने के लिये बिनती करके दबाया और जब जब वह  
 उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता  
 ९ था । और उस स्त्री ने अपने पति से कहा सुन यह  
 जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है सो  
 १० मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है । सो  
 मैं उस के लिये एक खाट एक मेज एक कुर्सी और एक  
 ११ खीबट रखें कि जब जब वह हमारे यहां आए तब तब उसी  
 उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में सो गया ।  
 १२ और उस ने अपने सेवक गेहजी से कहा उस शूनेमिन  
 को बुला ले । जब उस के बुलाने से वह उस के साम्हने  
 १३ खड़ी हुई, तब उस ने गेहजी से कहा इस से कह कि  
 तू ने हमारे लिये ऐसी बड़ी चिन्ता की है सो तेरे लिये  
 क्या किया जाए क्या तेरी चर्चा राजा वा प्रधान सेनापति  
 से की जाए । उस ने उत्तर दिया मैं तो अपने ही  
 १४ लोगों में रहती हूं । फिर उस ने कहा तो इस के लिये  
 क्या किया जाए । गेहजी ने उत्तर दिया निश्चय उस के  
 १५ कोई लड़का नहीं और उस का पति बूढ़ा है । उस ने  
 कहा उस को बुला ले और जब उस ने उसे बुलाया तब  
 १६ वह द्वार में खड़ी हुई । तब उस ने कहा बसन्त श्रृतु में  
 दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी स्त्री  
 १७ ने कहा हे मेरे प्रभु हे परमेश्वर के जन ऐसा नहीं अपनी  
 दासी को धोखा न दे । और स्त्री को गर्भ रहा और  
 बसन्त श्रृतु का जो समय एलीशा ने उस से कहा था  
 १८ उसी समय जब दिन पूरे हुए तब वह बेटा जनी । और  
 जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता  
 १९ के पास लवनेहारों के निकट निकल गया । और उस ने  
 अपने पिता से कहा आह मेरा सिर आह मेरा सिर तब  
 पिता ने अपने सेवक से कहा इस को इस की माता

के पास ले जा । वह उसे उठाकर उस की माता के पास २०  
 ले गया फिर वह दोपहर लौ उस के घुटनों पर बैठा  
 रहा तब मर गया । तब उस ने चढ़कर उस को परमेश्वर २१  
 के जन की खाट पर लिटा दिया और निकलकर किबाड़  
 बन्द किया तब उतर गई । और उस ने अपने पति से २२  
 पुकारकर कहा मेरे पास एक सेवक और एक गदही भेज  
 दे कि मैं परमेश्वर के जन के यहां भट हो आऊं । उस ने २३  
 कहा आज तू उस के यहां क्यों जाएगी आज न तो नये  
 चांद का और न विभ्राम का दिन है उस ने कहा कल्याण  
 होगा ? तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने २४  
 सेवक से कहा हांके चल और मेरे कहे बिना हांकेने में  
 दिलाई न करना । सो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत २५  
 को परमेश्वर के जन के निकट पहुंची । उसे दूर से देखकर  
 परमेश्वर के जन ने अपने सेवक गेहजी से कहा देख २६  
 उधर तो वह शूनेमिन है । अब उस से मिलने को दौड़  
 जा और उस से पूछ कि तू कुशल से है तेरा पति भी २७  
 कुशल से है और लड़का भी कुशल से है । पूछने पर स्त्री ने  
 उत्तर दिया हां कुशल से हैं । वह पहाड़ पर परमेश्वर के २८  
 जन के पास पहुंची और उस के पांव पकड़ने लगी, तब  
 गेहजी उस के पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए परन्तु  
 परमेश्वर के जन ने कहा उसे छोड़ दे उस का मन  
 ध्याकुल है पर यहोवा ने मुझ को नहीं बता दिया  
 २९ छिगा ही रखा है । तब वह कहने लगी क्या मैं ने अपने  
 प्रभु से पुत्र का वर मांगा था क्या मैं ने न कहा था मुझे  
 धोखा न दे । तब एलीशा ने गेहजी से कहा अपनी कमर २९  
 बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा मार्ग में यदि  
 कोई तुझे मिले तो उस का कुशल न पूछना और कोई  
 तेरा कुशल पूछे तो उस को उत्तर न देना और मेरी यह  
 ३० छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना । तब लड़के की मा  
 ने एलीशा से कहा यहोवा के और तेरे जीवन की सोह में  
 तुझे न छोड़ूंगी सो वह उठकर उस के पीछे पीछे चला ।  
 उन से आगे बढ़कर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के ३१  
 मुंह पर रखवा पर कोई शब्द सुन न पड़ा और न उस  
 ने कान लगाया सो वह एलीशा से मिलने को लौट आया  
 और उस को बतला दिया कि लड़का नहीं जागा । जब ३२  
 एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा  
 हुआ मेरी खाट पर पड़ा है । सो उस ने अकेला भीतर ३३  
 जाकर किबाड़ बन्द किया और यहोवा से प्रार्थना की ।  
 तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लोट गया कि ३४  
 अपना मुंह उस के मुंह से अपनी आंखें उस की आंखों  
 से और अपने हाथ उस के हाथों से मिला दिये और वह

(१) मूल में उस ने कहा कुशल ।

लड़के पर पसर गया तब लड़के की देह गर्माने लगी ।  
 ३५ और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और  
 फिर चढ़ कर लड़के पर पसर गया तब लड़का सात बार  
 ३६ छींका और अपनी आँखें खोलीं । तब पत्नीशा ने गेहजी को  
 बुलाकर कहा शूनेमिन को बुला ले जब उस के बुलाने  
 से वह उस के पास आई तब उस ने कहा अपने बेटे को  
 ३७ उठा ले । वह भीतर गई और उस के पाँवों पर गिर भूमि  
 लों झुककर दण्डवत् की फिर अपने बेटे को उठाकर  
 निकल गई ॥

३८ और एलीशा गिलगाल को लौट गया । उस समय  
 देश में अकाल था और नबियों के चेले उस के साम्हने  
 बैठे हुए थे और उस ने अपने सेवक से कहा हण्डा  
 ३९ चढ़ाकर नबियों के चेलों के लिये कुछ सिम्मा । तब कोई  
 मैदान में साग तोड़ने गया और कोई अनैली लता पाकर  
 अपनी अंकवार भर इन्द्रायण तोड़ ले आया और फांक  
 फांक करके सिम्माने के हण्डे में डाल दिया और वे उस  
 ४० को न चीन्हते थे । सो उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के  
 लिये हण्डे में से परोसा । खाते समय वे चिल्लाकर बोल  
 उठे हे परमेश्वर के जन हण्डे में माहुर है और वे उस  
 ४१ में से खा न सके । तब पत्नीशा ने कहा अच्छा कुछ मैदा  
 ले आओ तब उस ने उसे हण्डे में डाल कर कहा उन  
 लोगों के खाने के लिये परोस दे फिर हण्डे में कुछ  
 हानि की वस्तु न रही ॥

४२ और कोई मनुष्य बालशालीशा से पहिले उपजे  
 हुए जब की बीस रोटियाँ और अपनी बोरी में हरी बालें  
 परमेश्वर के जन के पास ले आया तो पत्नीशा ने कहा उन  
 लोगों को खाने के लिये दे । उस के टहलुए ने कहा क्यों  
 मैं सौ मनुष्यों के साम्हने इतना ही घर दूँ उस ने कहा  
 लोगों को दे दे कि खार्प क्योंकि यहोवा यों कहता है  
 ४४ उन के खाने पर कुछ बच भी जाएगा । तब उस ने  
 उन के आगे घर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार  
 उन के खाने पर कुछ बच भी गया ॥

(नामान कोदी का शुद्ध किया जाना)

**५. अराम के राजा का नामान नाम सेना-**

पति अपने स्वामी के लेखे बड़ा  
 और प्रतिष्ठित पुरुष था क्योंकि यहोवा ने उस के द्वारा  
 अरामियों का विजय किया था और यह शूरवीर था पर  
 १ काढ़ी था । अरामी लोग दल बांध इस्राएल के देश में  
 जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंधुई करके ले आये थे  
 २ और वह नामान की छाँ की टहलुइन हो गई । उस ने  
 अपनी स्वामिन से कहा जो मेरा स्वामी शोमरोन के नबी

(१) मूल में गृह्य ।

के पास होता तो क्या ही अच्छा होता क्योंकि वह उस को  
 कोढ़ से चंगा कर वेता । सो किसी ने उस के प्रभु के पास ४  
 जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की यों यों कहती है ।  
 अराम के राजा ने कहा तू जा मैं इस्राएल के राजा के ५  
 पास एक पत्र भेजूंगा सो वह दस किक्का चान्दी और  
 छः हजार टुकड़े सोना और दस जोड़े कपड़े साथ लेकर  
 चल दिया । और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ६  
 ले गया जिस में यह लिखा था कि जब यह पत्र तुम्हें  
 मिले तब जानना कि मैं ने नामान नाम अपने एक कर्म-  
 चारी को तेरे पास इसलिये भेजा है कि तू उस का कोढ़ ७  
 दूर कर दे । इस पत्र के पढ़ने पर इस्राएल का राजा  
 अपने वस्त्र फाड़कर बोला क्या मैं मारनेहारा और  
 जिलानेहारा परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी ८  
 का इसलिये भेजा है कि मैं उस का कोढ़ दूर करूँ सोच  
 विचार करो कि वह मुझ से भगड़े का कारण बूढ़ता ८  
 होगा । यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र  
 फाड़े हैं परमेश्वर के जन एलीशा ने राजा के पास ९  
 कहला भेजा कि तू ने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं वह मेरे  
 पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में नबी तो है ।  
 सो नामान बोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर ९  
 आकर खड़ा हुआ । तब एलीशा ने एक दूत से उस के १०  
 पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यर्दन में सात बार  
 डुबकी मार तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और  
 तू शुद्ध होगा । पर नामान बेपित हो यह कहता हुआ ११  
 चला गया कि मैं ने तो सोचा था कि अबश्य वह मेरे  
 पास बाहर आएगा और खड़ा हो अपने परमेश्वर यहोवा  
 से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर  
 कोढ़ को दूर करेगा । क्या दर्मशक की अशाना और पर्पर १२  
 नदियाँ इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं  
 क्या मैं उन में स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता । सो  
 वह फिर के जलजलाहट से भरा हुआ चला गया । तब १३  
 उस के सेवक पास आकर कहने लगे हे हमारे पिता यदि  
 नबी तुम्हें कोई भारी काम बताता तो क्या तू उसे न करता  
 फिर क्यों नहीं जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो ।  
 तब उस ने परमेश्वर के जन के कह के अनुसार यर्दन १४  
 को जाकर उस ने सात बार डुबकी मारी और उस का  
 शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हुआ ।  
 तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के जन के १५  
 यहाँ लौट गया और उस के सन्मुख खड़ा होकर कहने  
 लगा सुन अब मैं ने जान लिया है कि सारी पृथिवी में  
 इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है सो अब  
 अपने दास की भेंट ग्रहण कर । एलीशा ने कहा यहोवा १६

जिस के सम्मुख मैं हाकिर रहता हूँ उस के जीवन की सोह मैं कुल भेंट न लूंगा और जब उस ने उस को बहुत दबाया

१७ कि उसे ग्रहण करे तब भी वह नाह ही करता रहा । तब नामान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को दो खन्जर मिट्टी मिले क्योंकि आगे को तेरा दास यहोबा को छोड़ और किसी ईश्वर को होमबलि वा मेलबलि न चढ़ाएगा ।

१८ एक बात तो यहोबा तेरे दास के लिये क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मीन के भवन में दरदवत् करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यों मुझे भी रिम्मीन के भवन में दरदवत् करनी पड़े तब यहोबा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मीन के भवन में दरदवत्

१९ करूँ । उस ने उस से कहा कुशल से विदा हो । वह

२० उस के यहां से थोड़ी दूर चला गया था कि, परमेश्वर के जन एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उस को उस ने न लिया पर यहोबा के जीवन की सोह मैं उस के पीछे

२१ दौड़कर उस से कुछ न कुछ लूंगा । तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उस से मिलने को रथ से उतर पड़ा और

२२ पूछा सब कुशल कैम तो है । उस ने कहा हां सब कुशल है पर मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से नबियों के चेलों में से दो जवान मेरे यहां अभी आये हैं सो उन के लिये एक किकार

२३ चान्दी और दो जोड़े वस्त्र दे । नामान ने कहा दो किकार लेने को प्रसन्न हो तब उस ने उस से बहुत बिनती करके दो किकार चान्दी अलग थैलियों में बांधकर दो जोड़े वस्त्र समेत अपने दो सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें

२४ उस के आगे आगे ले चले । जब वह टीले के पास पहुंचा तब उन वस्तुओं को उन से लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया सो वे चले गये ।

२५ और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के साम्हने खड़ा हुआ । एलीशा ने उस से पूछा हे गेहजी तू कहां से

२६ आता है उस ने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया । उस ने उस से कहा जब वह पुरुष इधर मुँह फेरकर तुझ से मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब वह साए हाल मुझे मालूम था? क्या यह समय चान्दी वा बस्त्र वा जलपाई वा दास की बरियां भेड़ बकरियां गाय बैल और

२७ दास दासी लेने का है । इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे बंश को सदा लगा रहेगा । सो वह हिम सा खेत कोड़ी होकर उस के साम्हने से चला गया ॥

(१) बूल में क्या भेद बन न गया ।

(एलीशा का एक आश्चर्य कर्म)

६. और नबियों के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा यह स्थान जिस में हम तेरे साम्हने रहते हैं सो हमारे लिये सकेत है । सो हम यर्दन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिये एक स्थान बना लें, उस ने कहा अच्छा जाओ । तब किसी ने कहा अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो उस ने कहा चलता हूँ । सो वह उन के संग चला और वे यर्दन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे । पर एक जन बल्ली काट रहा था कि कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई सो वह चिल्लाकर कहने लगा हाय मेरे प्रभु वह तो मंगनी की थी । परमेश्वर के जन ने पूछा वह कहां गिरी जब उस ने स्थान दिखाया तब उस ने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा उतराने लगा । उस ने कहा उसे उठा ले सो उस ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया ॥

(एलीशा का अरामी दल से बचना)

और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि फुलाने स्थान पर मेरी छावनी हो । तब परमेश्वर के जन ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा कि चाँकसी कर और फुलाने स्थान होकर न जाना क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करनेवाले हैं । तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिस की चर्चा करके परमेश्वर के जन ने उसे चिताया था भेजकर अपनी रक्षा की और यह दां एक बार नहीं बहुत बार हुआ । इस कारण अराम के राजा का मन बहुत धरारा गया सो उस ने अपने कर्मचारियों का बुलाकर उन से पूछा क्या तुम मुझे न बता दोगे कि हमारे लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है । उस के एक कर्मचारी ने कहा हे मेरे प्रभु हे राजा ऐसा नहीं एलीशा जो इस्राएल में नबी है वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है । राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहां है तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा । जब उस को यह समाचार मिला कि वह दोतान में है, तब उस ने वहां धोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने ने रात को आकर नगर को घेर लिया । और परमेश्वर के जन का टहलुआ उठ निकल कर क्या देखता है कि धोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे है सो उस के सेवक ने उस से कहा हाय मेरे स्वामी हम क्या करें । उस ने कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर हैं सो उन से अधिक हैं जो उन की ओर हैं । तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोबा इस की आंखें

खोल दे कि यह देख सके सो यहोवा ने सेबक की आँखें खोल दीं और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा को चारों ओर का पहाड़ अग्रिमय ढोड़ों और १८ रथों से भरा हुआ है । जब अरामी उस के पास आये तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस गोल को अन्धा कर डाल । एलीशा के इस वचन के अनुसार उस १९ ने उन्हें अन्धा कर डाला । तब एलीशा ने उन से कहा यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है मेरे पीछे हो लो मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम खोजते हो पहुँचाऊँगा २० तब उस ने उन्हें शोमरोन को पहुँचा दिया । जब वे शोमरोन में आ गये तब एलीशा ने कहा हे यहोवा इन लोगों की आँखें खोल कि देख सकें सो यहोवा ने उन की आँखें खोलीं और जब वे देखने लगे तब क्या देखा २१ कि हम शोमरोन के बीच हैं । उन का देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा हे मेरे पिता क्या मैं इन को २२ मार लूँ क्या मार लूँ । उस ने उत्तर दिया मत मार क्या तू अपनी तलवार और धनुष के बन्धुओं को मार लेता है । इन को अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास २३ चले जाएँ । तब उस ने उन के लिये बड़ी जेबनार की और जब वे खा पी चुके तब उस ने उन्हें बिदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गये । इस के पीछे अराम के दल फिर इस्राएल के देश में न आये ॥

(शोमरोन में बड़ी महंगी का होना और छूट जाना)

२४ पर हम के पीछे अराम का राजा बेन्हदद ने अपनी सारी सेना एकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई की और उस २५ को घेर लिया । सो शोमरोन में बड़ी महंगी हुई और वह यहाँ लो घिरा रहा कि अन्त में एक गदहे का सिर चान्दी के अस्सी टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट पाँच टुकड़े चान्दी तक बिकने लगी । २६ और इस्राएल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकारके उस से कहा हे प्रभु हे राजा बचा । २७ उस ने कहा यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊँ क्या खलिहान में से वा दाखरस के कुएँ में से । फिर राजा ने उस से पूछा तुझे क्या हुआ उस ने उत्तर दिया इस स्त्री ने मुझ से कहा था मुझे अग्ना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें फिर कल मैं अग्ना बेटा २९ दूँगी और हम उसे भी खाएंगी । सो मेरा बेटा सिभाकर इस ने खा लिया फिर दूसरे दिन जब मैं ने इस से कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें तब इस ने अपने ३० बेटे को श्रिपा रक्खा । उस स्त्री की ये बातें सुनने ही राजा ने अग्ने बख फाड़े (वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था) सो जब लोगों ने देखा तब उन को यह देख

पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहिने है । तब ३१ वह बोल उठा यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उस के भड़ पर रहने दूँ तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही बरन इस से अधिक भी करे । इतने में एलीशा अपने ३२ घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उस के संग बैठे थे सो जब राजा ने अपने पास से एक जन मेजा तब उस दूत के पहुँचने से पहिले उस ने पुरनियों से कहा देखो कि इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को मेजा है, सो जब वह दूत आए तब किवाड़ बन्द करके रोके रहना क्या उस के स्वामी के पाँव की आहट उस के पीछे नहीं सुन पड़ती । वह उन से ये बातें कर ही रहा था ३३ कि दूत उस के यहाँ आ पहुँचा । और राजा कहने लगा यह निपत्ति यहोवा की ओर से है सो मैं आगे को भी ३४ यहोवा की बात क्यों जोहता रहूँ । तब एलीशा ने ३५ कहा यहोवा का वचन सुनो यहोवा यों कहता है कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सत्रा भर मैदा एक शेकेल में और दो सत्रा जब भी एक शेकेल में बिकेगा । तब उस सरदार ने जिस के हाथ पर राजा टेक ३६ लगाये था परमेश्वर के जन के उत्तर देकर कहा सुन चाहे यहोवा आकाश के भरोखे खोले तौभी क्या ऐसी बात हो सकेगी उस ने कहा सुन तू यह अपनी आँखों से तो देखेगा पर उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा ॥

और चार कोढ़ी फाटक के बाहर ये वे आपस में ३७ कहने लगे हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएँ । यदि हम ३८ कहें कि नगर में जाएँ तो वहाँ मर जाएंगी क्योंकि वहाँ महंगी पड़ी है और जो हम यहाँ बैठे रहें तौभी मर ही जाएंगी सो आओ हम अराम की सेना में पकड़े जाएँ यदि वे हम को जिलाये रखें तो हम जीते रहेंगे और यदि वे हम को मार डालें तौभी हम को मरना ही है । सो वे साँभ के अराम की छावनी में जाने को चले ३९ और अराम की छावनी की छोर पर पहुँचकर क्या देखा कि यहाँ कोई नहीं है । क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना ४० को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी सो वे आपस में कहने लगे थे कि सुनी इस्राएल के राजा ने हिस्ती और मिस्री राजाओं के बेतन पर बुलवाया कि हम पर चढ़ाई करें । सो वे साँभ के ४१ उठकर ऐसे भाग गये कि अपने डेरे छोड़े गदहे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छोड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गये । सो जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के ४२ डेरों के पास पहुँचे तब एक डेरे में दुसरे खाया पिया और उस में से चान्दी सोना और बख ले जाकर श्रिपा रक्खा फिर लौटकर दूसरे डेरे में बैठे और उस में से भी

९ ले जाकर छिपा रक्खा । तब वे आपस में कहने लगे जो हम कर रहे हैं सो अच्छा काम नहीं है यह आनन्द के समाचार का दिन है पर हम किसी को नहीं बताते । जो हम पह फटने लों ठहरे रहें तो हम को दण्ड मिलेगा सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात

१० बतला दें । सो वे चले और नगर के डेवढीदारों को बुलाकर बताया कि हम जो अराम की छावनी में गये तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है केवल बन्धे हुए घोड़े और गदहे हैं और डेरे जैसे के तैसे

११ हैं । तब डेवढीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर

१२ समाचार दिलाया । और राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा मैं तुम्हें बताता हूं कि अरामियों ने हम से क्या किया है वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गये हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उन

१३ को जीते ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे । पर राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा कि जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उन में से लोग पांच घोड़े लें और उन को भेजकर हम हाल जान लें । वे तो इस्त्राएल की सारी भीड़

१४ भीड़ मर मिट गई है उसी के समान हैं । सो उन्होंने ने दो रथ और उन के घोड़े लिये और राजा ने उन को अराम की सेना के पीछे भेजा और उस ने कहा आओ देखो ।

१५ सो वे यर्दन तक उन के पीछे चले गये और क्या देखा कि सारा मार्ग बलों और पात्रों से भरा पड़ा है जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया तब दूत लौट

१६ आये और राजा से यह कह सुनाया । सो लोगों ने निश्चलकर अराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार एक सत्रा मैदा एक शेकेल में और दो सत्रा जब

१७ एक शेकेल में बिकने लगा । और राजा ने उस सरदार को जिस के हाथ पर वह टेक लगाता था फाटक का अधिकारी ठहराया तब वह फाटक में लोगों के नाचे दबकर मर गया यह परमेश्वर के जन के उस वचन के अनुसार हुआ जो उस ने राजा के अपने यहां आने के समय कहा

१८ था । परमेश्वर के जन ने जैसा राजा से यह कहा था कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में दो सत्रा जब एक शेकेल में और एक सत्रा मैदा एक शेकेल में बिकेगा

१९ वैसा ही हुआ, और उस सरदार ने परमेश्वर के जन को उत्तर देकर कहा था कि सुन चाहे यहोवा आकाश के भरोखे खोले तभी क्या ऐसी बात हो सकेगी और उस ने कहा था सुन तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा पर

२० उस अन्न में से खाने न पाएगा, यह उस पर ठीक

घट गया सो वह फाटक में लोगों के नोचे दबकर मर गया ॥

(एलीशा के आश्चर्यकर्मों की कीर्ति)

८. जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया

था उस से उस ने कहा था अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े वह इस देश में सात बरस लों बना रहेगा । परमेश्वर के जन के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्रियों के देश में जा सात बरस रही । सात बरस के बीते पर वह पलिश्रियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिये दोहाई देने को राजा के पास गई । राजा परमेश्वर के जन के सेवक गोहजी से बातें कर रहा था और उस ने कहा था जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किये हैं उन्हें मुझ से वर्णन कर । जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया तब जिस स्त्री के बेटे को उस ने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिये दोहाई देने लगी सो गोहजी ने कहा हे मेरे प्रभु हे राजा यह वही स्त्री है और यही उस का बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था । जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उस ने उस से सब कह दिया सो राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उस के साथ कर दिया कि जो कुछ इस का था बरन जब से इस ने देश को छोड़ दिया तब से इस के खेत की जितनी आमदनी अब लों हुई हो सब को इसे भरवा दे ॥

(हजाएल का अराम की गद्दी छीन लेना)

और एलीशा दमिश्क को गया और जब अराम के राजा बेन्हदद को जो रोगी था यह समाचार मिला कि परमेश्वर का जन यहां भी आया है, तब उस ने हजाएल से कहा भेंट लेकर परमेश्वर के जन से मिलने को जा और उस के द्वारा यहोवा से यह पूछ कि क्या बेन्हदद जो रोगी है सो बचेगा कि नहीं । तब हजाएल भेंट के लिये दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से चालीस ऊंट लदवाकर उस से मिलने को चला और उम के सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा तेरे पुत्र अराम के राजा बेन्हदद ने मुझे तुझ से यह पूछने को भेजा है कि क्या मैं जो रोगी हूं सो बचूंगा कि नहीं । एलीशा ने उस से कहा जाकर कह तू निश्चय न बचेगा क्योंकि यहोवा ने मुझ पर प्रगट किया है कि वह निःसंदेह मर जाएगा । और वह उस की ओर टकटकी बांध कर देखता रहा यहां लों कि वह लजित हुआ तब परमेश्वर का जन रोने

(१) मूल में यहोवा ने अकाल बुलाया है ।

१२ लगा । तब हजाएल ने पूछा मेरा प्रभु क्यों रोता है उस ने उत्तर दिया इसलिये कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा उन के गढ़वाले नगरों को तू फूंक देगा उन के जवानों को तू तलवार से घात करेगा उन के बालबच्चों को तू पटक देगा और उन की गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा । हजाएल ने कहा तेरा दास जो कुत्ते सरीखा है सो क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे एलीशा ने कहा यहोवा ने मुझ पर यह प्रगट किया है १३ कि तू अराम का राजा हो जाएगा । तब वह एलीशा से बिदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उस ने उस से पूछा एलीशा ने तुझ से क्या कहा उस ने उत्तर दिया १४ उध ने मुझ से कहा कि बेन्हदद निःसंदेह बचेगा । दूसरे दिन उस ने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया और उस को उस के भूंह पर ओढ़ा दिया और वह मर गया । तब हजाएल उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(इस्राएली योराम का राज्य)

१६ इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र योराम के पांचवें बरस में जब यहूदा का राजा यहोशापात जीता था तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा । १७ जब वह राजा हुआ तब बीस बरस का था और आठ बरस लो यरूशलेम में राज्य करता रहा । वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था क्योंकि उस की स्त्री अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा के लेखे बुरा है । १९ तौभी यहोवा ने यहूदा को नाश करना न चाहा यह उस के दास दाऊद के कारण हुआ क्योंकि उस ने उस को बचन दिया था कि तेरे बंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिये एक दीपक बरा हुआ रखूंगा । उध के दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया । तब योराम अपने सब रथ साथ लिये हुए सारैर को गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा और लोग अपने अपने डेरे को भाग गये । यों एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज लो वैसा ही है । उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी । २३ योराम के और सब काम और जो कुछ उस ने किया सो क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है । निदान योराम अपने पुरखाओं के संग सोया और उन के बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई और उस का पुत्र अहज्याह उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(यहूदी अहज्याह का राज्य)

२५ अहाब के पुत्र इस्राएल के राजा योराम के बारहवें

बरस में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राज्य करने लगा । जब अहज्याह राजा हुआ तब बाईस बरस २६ का था और यरूशलेम में एक ही बरस राज्य किया और उस की माता का नाम अतल्याह था जो इस्राएल के राजा ओझी की पोती थी । वह अहाब के घराने की सी चाल चला २७ और अहाब के घराने की नाह वह काम करता था जो यहोवा के लेखे बुरा है कि वह अहाब के घराने का दामाद था । और वह अहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया और अरामियों ने योराम को घायल किया । सो राजा २९ योराम इसलिये लौट गया कि यिज्रैल में उन घावों का इलाज कराए जो उस को अरामियों के हाथ से उस समय लगे जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था और अहाब का पुत्र योराम जो यिज्रैल में रोगी रहा इस से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उस को देखने गया ॥

(बेहू का अभिषेक और राज्य)

६. तब एलीशा नबी ने नबियों के चेलों में

से एक को बुलाकर उस से कहा कमर बांध हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा । और वहां पहुंचकर येहू को जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है दूढ़ लेना तब भीतर जा उस को खड़ा कराकर उस के भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना । तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उस के सिर पर यह कह कर डालना कि यहोवा यों कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिये तेरा अभिषेक कर देता हूँ तब द्वार खोलकर भागना बिलम्ब न करना । सो वह जवान नबी गिलाद के रामोत को गया । वहां पहुंचकर उस ने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं तब उस ने कहा हे सेनापति मुझे तुझ से कुछ कहना है येहू ने पूछा हम सबों में किस से उस ने कहा हे सेनापति तुम्हीं से । जब वह उठकर घर में गया तब उस ने यह कहकर उस के सिर पर तेल डाला कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैं अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा होने के लिये तेरा अभिषेक कर देता हूँ । सो तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना जिस से मुझे अपने दास नबियों के बरन अपने सब दासों के खून का जो ईजेबेल ने बहाया पलटा मिले । अहाब का सारा घराना नाश हो जाएगा और मैं अहाब के बंश के हर एक लड़के को और इस्राएल में के क्या बन्धुए क्या स्वाधीन हर एक को नाश कर डालूंगा । और मैं अहाब का घराना नबात के पुत्र यहोराम का था और अहज्याह

- १० के पुत्र बाबा का सा कर दूंगा । और ईजेबेल को यिज्जेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उस को भिन्नी देनेहारा
- ११ कोई न होगा तब वह द्वार खोलकर भाग गया । तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उस से पूछा क्या कुशल है वह बाबता क्यों तेरे पास आया या उस ने उन से कहा तुम को मालूम होगा कि वह कौन है और उस से क्या बातचीत हुई ।
- १२ उन्होंने ने कहा झूठ है हमें बता दे उस ने कहा उस ने मुझ से कहा तो बहुत पर मतलब यह कि यहोवा यों कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिये तेरा अभिषेक कर देता हूँ । तब उन्होंने ने झूठ अपना अपना वस्त्र उतार कर उस के नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फंकर
- १४ कहने लगे कि येहू राजा है । यों येहू जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था उस ने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की । योराम तो सारे इस्राएल समेत अराम के राजा हजाएल से गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा था । पर राजा यहोराम आप जो चाव अराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उस को अरामियों से लगे थे उन का हलाक कराने के लिये यिज्जेल को लौट गया था । सो येहू ने कहा यदि तुम्हारा ऐसा मन है तो इस नगर में से कोई
- १६ निकल कर यिज्जेल में सुनाने को न जाने पाए । तब येहू रथ पर चढ़कर यिज्जेल को चला जहां योराम पड़ा हुआ था और यहूदा का राजा अहज्याह योराम के देखने को वहां आया था । यिज्जेल में के गुम्मत पर जो पहरुआ खड़ा था उस ने येहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा मुझे एक दल दीखता है यहोराम ने कहा एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और
- १८ वह उन से पूछे क्या कुशल है । सो एक सवार उस से मिलने को गया और उस से कहा राजा पूछता है क्या कुशल है येहू ने कहा कुशल से तेरा क्या काम हटकर मेरे पीछे चल । सो पहरुए ने कहा वह दूत उन के पास
- १९ पहुंचा तो था पर लौट नहीं आता । तब उस ने दूसरा सवार भेजा और उस ने उन के पास पहुंचकर कहा राजा पूछता है क्या कुशल है येहू ने कहा कुशल से तेरा क्या काम हटकर मेरे पीछे चल । तब पहरुए ने कहा वह भी उन के पास पहुंचा तो था पर लौट नहीं आता और हांकना निमशी के पोते येहू का सा है वह तो बौद्धे
- २१ की नाई हांकता है । योराम ने कहा मेरा रथ जुतवा जब उस का रथ जुत गया तब इस्राएल का राजा यहोराम और यहूदा का राजा अहज्याह दोनों अपने अपने रथ पर चढ़ कर निकल गये और येहू से मिलने को बाहर जाकर यिज्जेल नाबोत की भूमि में उस से भेंट की ।

येहू को देखते ही यहोराम ने पूछा हे येहू क्या कुशल है २१ येहू ने उत्तर दिया जब लौं तेरी माता ईजेबेल बहुत सा छिनाला और टोना करती रहे तब लौं कुशल कहा । तब यहोराम रास<sup>१</sup> फेरके और अहज्याह से यह कहकर २३ कि हे अहज्याह विश्वासवात है भाग चला । तब २४ येहू ने धनुष को कान तक खींचकर<sup>२</sup> यहोराम के पखौड़ों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उस का हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुक कर गिर पड़ा । तब येहू ने बिदकर नाम अपने एक सरदार से कहा २५ उसे उठाकर यिज्जेली नाबोत की भूमि में फेंक दे स्मरण तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उस के पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे तब यहोवा ने उस से यह भारी वचन कहाया कि, यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उस के पुत्रों २६ का जो खून हुआ उसे मैं ने देखा है और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुम्हे बदला दूंगा । सो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार इसे उठाकर इसी भूमि में फेंक दे । यह देखकर यहूदा के राजा अहज्याह बारी २७ के भवन के मार्ग से भाग चला और येहू ने उस का पीछा करके कहा उस को भी रथ ही पर मारो सो वह यिबलाम के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया और मगिहो तक भागकर मर गया । तब उस के कर्मचारियों २८ ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उस के पुरखाओं के बीच मिट्टी दी ॥

अहज्याह तो अहाब के पुत्र योराम के ग्यारहवें २९ बरस में यहूदा पर राज्य करने लगा था । जब येहू ३० यिज्जेल को आया तब ईजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुर्मा लगा अपना सिर संवारकर खिड़की में से झांकने लगी । सो जब येहू फाटक होकर आ रहा था तब उस ३१ ने कहा हे अपने स्वामी के घात करनेहारे जिम्मी क्या कुशल है । तब उस ने खिड़की की ओर मुंह उठाकर ३२ गूछा मेरी ओर कौन है कौन । इस पर दो तीन खोजों ने उस की ओर झांका । तब उस ने कहा उसे नीचे ३३ गिरा दो सो उन्होंने ने उस को नीचे गिरा दिया और उस के लोहू की कुछ छींटें भीत मर और कुछ चोड़ों पर पड़ीं और उस ने उस को पांव से लताड़ दिया । तब वह भीतर ३४ जाकर खाने पाने लगा और कहा जाओ उस स्थापित की को देख लो और उसे मिट्टी दो वह तो राजा की बेटी है । जब वे उसे मिट्टी देने गये तब उस की खोपड़ी पांवों ३५ और हथेलियों को छोड़कर उस का और कुछ न पाया । सो उन्होंने ने लौटकर उस से कह दिया तब उस ने कहा यह ३६

(१) मूज में अपने हाथ । (२) मूल में अपना हाथ धनुष से भर के ।

यहोवा का वह वचन है जो उस ने अपने दास तिशावी एलिय्याह से कहा था कि ईजेबेल का मांस यिज्रैल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा । और ईजेबेल की लीथ यिज्रैल की भूमि पर खाद की नाईं पड़ी रहेगी यहां लो कि कोई न कहेगा कि यह ईजेबेल है ॥

### १०. अहाब के तो सत्तर बेटे पीते शोम-

रोन में रहते थे सो यहू ने शोमरोन में उन पुरनियों के पास जो यिज्रैल के हाकिम थे और अहाब के लकड़वालों के पालनेहारों के पास पत्र लिखकर भेजे कि, तुम्हारे स्वामी के बेटे पीते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे रथ और घोड़े भी हैं और तुम्हारे एक गढ़वाला नगर और हथियार भी हैं सो इस पत्र के हाथ लगते ही, अपने स्वामी के बेटों में से जो सब से अच्छा और योग्य हो उस को छांट कर उस के पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिये लड़ो । पर वे निपट डर गये और कहने लगे उस के साम्हने दो राजा भी ठहर न सके फिर हम कहां ठहर सकेंगे । तब जो राजघराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था उन्होंने ने और पुरनियों और लकड़वालों के पालनेहारों ने यहू के पास यों कहला भेजा कि हम तेरे दास हैं जो कुछ न हम से कहे उसे हम करेंगे हम किसी का राजा न बनाएंगे जो तुम्हें भाए सोई कर । सो उस ने दूसरा पत्र लिखकर उन के पास भेजा कि यदि तुम मेरी और के हो और मेरी मानो तो अपने स्वामी के बेटों पीतों के सिर कटवाकर कल इसी समय तक मेरे पास यिज्रैल में हाजिर होना । राजपुत्र तो जो सत्तर मनुष्य थे सो उस नगर के रईसों के पास पलते थे । यह पत्र उन के हाथ लगते ही उन्होंने ने उन सत्तरों राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उन के सिर टोकरीयों में रखकर यिज्रैल को उस के पास भेज दिये । और एक दूत ने उस के पास जाकर बता दिया कि राजकुमारों के सिर आ गये हैं तब उस ने कहा उन्हें फाटक में दो ढेर करके बिहान लो रक्खो । बिहान को उस ने बाहर जा खड़े होकर सारे लोगों से कहा तुम तो निर्दोष हो मैं ने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया पर इन सभों को किस ने मार डाला । अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था उसे उस ने पूरा किया है जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय कहा उस में से एक भी बात बिना पूरी हुए न रहेगी । सो अहाब के घराने के जितने लोग यिज्रैल में रह गये उन सभों को और उस के जितने

(१) मूल में भूमि पर न गिरेगी ।

प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे उन सभों को यहू ने मार डाला यहां लो कि उस ने किसी को जीता न छोड़ा । तब वह वहां से चलकर शोमरोन को गया और मार्ग में चरबाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुंचा, कि यहूदा के राजा अहज्याह के भाई यहू को मिले और जब उस ने पूछा कि तुम कौन हो तब उन्होंने ने उत्तर दिया हम अहज्याह के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशलचेम पूछने को जाते हैं । तब उस ने कहा इन्हें जीते पकड़ो सो उन्होंने ने उन को जो बयालीस पुरुष थे जीते पकड़ा और ऊन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला उस ने उन में से किसी को न छोड़ा ॥

जब वह वहां से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब साम्हने से आता हुआ उस को मिला । उस का कुशल उस ने पूछकर कहा मेरा मन तो तेरी ओर निष्कपट है सो क्या तेरा मन भी वैसा ही है यहोनादाब ने कहा हां ऐसा ही है फिर उस ने कहा ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे उस ने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा कि, मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है सो वह उस के रथ पर चढ़ा दिया गया । शोमरोन को पहुंचकर उस ने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उस ने एलिय्याह से कहा था अहाब के जितने शोमरोन में बचे रहे उन सभों को मार के विनाश किया । तब यहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा अहाब ने तो बाल की योड़ी ही उपासना की थी अब यहू उस की उपासना बढ़के करेगा । सो अब बाल के सब नभियों सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ उन में से कोई भी न रह जाए क्योंकि बाल के लिये मेरा एक बड़ा यज्ञ होनेवाला है जो कोई न आए सो जीता न बचेगा । यहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नाश करने के लिये किया । तब यहू ने कहा बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो सो लोगों ने प्रचार किया । और यहू ने सारे इस्राएल में दूत भेजे सो बाल के सब उपासक आये यहां लो कि ऐसा कोई न रह गया जो न आया हो । और वे बाल के भवन में इसने आये कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे लो भर गया । तब उस ने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा बाल के सब उपासकों के लिये वस्त्र निकाल ले आओ सो वह उन के लिये वस्त्र निकल ले आया । तब यहू रेकाब के पुत्र यहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा दूढ़कर देखो कि यहां तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है केवल बाल ही के उपासक



२४ हैं। तब वे मेलबलि और होमबलि चढ़ाने को भीतर गये। येहू ने तो अस्ती पुरुष बाहर धरकर उन से कहा था यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर वूं कोई भी बचने पाए तो जो उसे जाने दे उस का प्राण उस के प्राण की सन्ती जाएगा। फिर जब होमबलि चढ़ चुका तब येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा भीतर जाकर उन्हें मार डालो कोई निकलने न पाए सो उन्होंने उनमें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उन को बाहर फेंककर बाल के भवन के नगर को गये। और उन्होंने २६ बाल के भवन में की लाठें निकालकर फूंक दीं। और २७ बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर पायखाना बना दिया और वह आज लों २८ ऐसा ही है। यों येहू ने बाल को इस्राएल में से नाश २९ करके दूर किया। सोभी नवात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था उस के पापों के अनुसार करने से अर्थात् बेतेल और दान में के सोने के बड़ड़ों की पूजा ३० उस से तो येहू अलग न हुआ। और यहोवा ने येहू से कहा इसलिये कि तू ने वह किया जो मेरे लेखे ठीक है और अहाब के बराने से मेरी पूरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है तेरे परपोते के पुत्र लों तेरी सन्तान इस्राएल की ३१ गद्दी पर विराजती रहेगी। पर येहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर सारे मन से चलने की चौकसी न की बरन यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था उस के पापों के अनुसार करने से वह अलग न हुआ ॥

३२ उन दिनों यहोवा इस्राएल को घटाने लगा सो ३३ हजाएल ने इस्राएल का वह सारा देश मारा, जो यर्दन से पूरब और है गिलाद का सारा देश और गादी और रुबेनी और मनश्शेई का देश अर्थात् अरोएर से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है गिलाद और बाशान ३४ तक। येहू के और सब काम जो कुछ उस ने किया और उस की सारी बीरता यह सब क्या इस्राएल के राजाओं ३५ के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। निदान येहू अपने पुरखाओं के संग सोया और शोमरोन में उस को मिट्टी दी गई और उस का पुत्र यहोआहाज उस के स्थान ३६ पर राजा हुआ। येहू के शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने का समय तो अट्ठाईस बरस का था ॥

(यहोआश का बात से बचकर राजा हो जाना)

**११. जब अहज्याह की माता अतल्याह ने**

देखा कि मेरा पुत्र मर गया तब उस ने सारे राजवंश को नाश कर डाला। पर यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अहज्याह की बहिन थी उस ने अहज्याह के पुत्र योआश को बात होनेवाले राजकुमारों

के बीच में चुराकर भाई समेत बिलौने रखने की कोठी से छिपा दिया और उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा रक्खा कि वह मार डाला न गया। और वह उस के पास यहोवा के भवन में छुः बरस छिपा रहा और अतल्याह देश पर राज्य करती रही ॥

सातवें बरस में यहोयादा ने जह्जादों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उन को यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उन से वाचा बान्धी और यहोवा के भवन में उन को किरिया खिलाकर उन को राजपुत्र दिखाया। और उस ने उन्हें आज्ञा दी कि यह काम करो अर्थात् तुम में से एक तिहाई के लोग जो विश्रामदिन को आनेवाले हों सो राजभवन के पहरे की चौकसी करें। और एक तिहाई के लोग सूर नाम फाटक में ठहरे रहें और एक तिहाई के लोग पहरुओं के पीछे के फाटक में रहें यों तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना। और तुम्हारे दो दल अर्थात् जितने विश्राम दिन को बाहर जानेवाले हों सो राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करें। और तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिये हुए राजा के चारों ओर रहना और जो कोई पातियों के भीतर घुसना चाहे वह मार डाला जाए और तुम राजा के आते जाते उस के संग रहना। यहोयादा याजक की इन सारी आज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया। वे विश्रामदिन को आनेवाले और विश्रामदिन को जानेवाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को संग लेकर यहोयादा याजक के पास गये। तब याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बछे और ढालें जो यहोवा के भवन में थीं दे दीं। सो वे पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिये हुए भवन के दक्खिनी कोने से लेकर उत्तरी कोने लों वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उस की आड़ करके खड़े हुए। तब उस ने राजकुमार को बाहर लाकर उस के सिर पर मुकुट और साक्षीपत्र धर दिया तब लोगों ने उस का अभिषेक करके उस को राजा बनाया फिर ताली बजा बजाकर बोल उठे राजा जीता रहे। जब अतल्याह को पहरुओं और लोगों का हीरा सुन पड़ा तब वह उन के पास यहोवा के भवन में गई। और उस ने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खम्भे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही बजानेवाले खड़े हैं और सब लोग आनन्द करते और तुरहियां बजा रहे हैं तब अतल्याह अपने बच्च फाड़कर राजद्रोह राजद्रोह यों पुकारने लगी। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को आज्ञा दी कि उसे अपनी पातियों के बीच से निकाल ले जाओ

और जो कोई उस के पीछे चले उसे तलवार से मार डालो  
 सो याजक ने तो वह कहा कि वह यहोवा के भवन में मार  
 १६ डाली न जाए । सो उन्होंने ने दोनों ओर से उस को जगह  
 दी और वह उस मार्ग से चली गई जिस से चौड़े राज-  
 भवन में जाया करते थे और वहां वह मार डाली गई ॥  
 १७ तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के  
 बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बन्वाई और उस ने  
 १८ राजा और प्रजा के बीच भी वाचा बन्वाई । तब सब लोगों  
 ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उस की  
 वेदियां और मूर्तें मली भांति तोड़ दीं और मतान नाम  
 बाल के याजक को वेदियों के साम्हने ही घात किया ।  
 और याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा  
 १९ दिये । तब वह शतपतियों जल्लादों और पहरुओं और सब  
 लोगों को साथ लेकर राजा के यहोवा के भवन से नीचे  
 ले गया और पहरुओं के फाटक के मार्ग से राजभवन  
 को पहुंचा दिया और राजा राजगद्दी पर विराजमान  
 २० हुआ । सो सब लोग आनन्दित हुए और नगर में  
 शान्ति हुई । अतल्याह तो राजभवन के पास तलवार  
 से मार डाली गई थी ॥

(यहोआश का राज्य)

१२. जब यहोआश राजा हुआ तब वह

सात बरस का था । येहू के सातवें

बरस में यहोआश राज्य करने लगा और यरूशलेम में  
 चालीस बरस लों राज्य करता रहा उस की माता का  
 २ नाम सिब्या था जो बेशेबा की थी । और जब लों  
 यहोयादा याजक यहोआश को शिक्षा देता रहा तब लों  
 वह बही काम करता रहा जो यहोवा के लेखे ठीक है ।  
 ३ तीभी ऊंचे स्थान गिराये न गये प्रजा के लोग तब भी  
 ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे ॥

४ और यहोआश ने याजकों से कहा पवित्र की हुई  
 वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया  
 जाए अर्थात् गिने हुए लोगों का रुपया और जितने रुपये  
 के जो कोई योग्य ठहराया जाए और जितना रुपया जिस  
 ५ की इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, इस सब  
 को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया  
 करें और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उस को सुधार  
 ६ दें । तीभी याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था उसे  
 यहोआश राजा के तेईसवें बरस तक न सुधारा था ।  
 ७ सो राजा यहोआश ने यहोयादा याजक और और  
 याजकों को बुलवाकर पूजा भवन में जो कुछ टूटा फूटा  
 है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते भला अब से अपनी जान

पहचान के लोगों से और रुपया न लेना जो तुम्हें मिल चुका  
 हो उसे भवन के सुधारने के लिये दे दो । तब याजकों ने  
 मान लिया कि न तो हम प्रजा से और रुपया लें और न  
 भवन को सुधारें । पर यहोयादा याजक ने एक संदूक ले  
 ९ उस के ढकने में छेद करके उस को यहोवा के भवन में  
 आनेहारे के दहिने हाथ पर वेदी के पास धर दिया और  
 डेवड़ी की रखवाली करनेहारे याजक उस में वह सब रुपया  
 डाल देने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था ।  
 जब उन्होंने ने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है तब राजा  
 १० के प्रधान और महायाजक ने आकर उसे पैलियों में बांध  
 दिया और यहोवा के भवन में पाये हुए रुपये को गिन  
 लिया । तब उन्होंने ने उस तौले हुए रुपये को उन काम  
 ११ करानेहारों के हाथ में दिया जो यहोवा के भवन में अधि-  
 कारी थे और इन्होंने ने उसे यहोवा के भवन के बनानेहारे  
 बढ़इयों, राजों और संगतराशों को दिया और लकड़ी और  
 १२ गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में बरन जो कुछ भवन में के  
 टूटे फूटे की मरम्मत में खर्च होता था उस में लगाया ।  
 पर जो रुपया यहोवा के भवन में आता था उस में से  
 १३ चान्दी के तसले चिमटे कटोरे तुरहियां आदि सोने वा  
 चान्दी के किसी प्रकार के पात्र न बने । पर वह काम  
 १४ करनेहारों को दिया गया और उन्होंने ने उसे लेकर यहोवा  
 के भवन की मरम्मत की । और जिन के हाथ में काम  
 १५ करनेहारों को देने के लिये रुपया दिया जाता था उन से  
 कुछ लेखा न लिया जाता था क्योंकि वे सचाई से काम  
 करते थे । जो रुपया देापबलियों और पापबलियों के लिये  
 १६ दिया जाता था यह तो यहोवा के भवन में न लगाया  
 गया वह याजकों को मिलता था ॥

तब अराम के राजा हजाएल ने गत नगर पर चढ़ाई  
 १७ की और उस से लड़ाई करके उसे ले लिया तब उस ने  
 यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने को अपना मुंह किया । तब  
 १८ यहूदा के राजा यहोआश ने उन सब पवित्र वस्तुओं को  
 जिन्हें उस के पुरखा यहोशापात येहोराम और अहज्याह  
 नाम यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था और अपनी  
 पवित्र की हुई वस्तुओं को भी और जितना सोना यहोवा  
 के भवन के भण्डारों में और राजभवन में मिला उस  
 सब को लेकर अराम के राजा हजाएल के पास भेज दिया  
 और वह यरूशलेम के पास से चला गया । योआश के  
 १९ और सब काम जो उस ने किये सो क्या यहूदा के राजाओं  
 के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं । योआश के  
 २० कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उस को मिला  
 के भवन में जो सिल्ला की उतराई पर था मार डाला ।  
 अर्थात् शिमात का पुत्र योजाकार और शेमेर का पुत्र  
 २१

यहोजाबाद जो उस के कर्मचारी थे उन्होंने ने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया तब उसे उस के पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी और उस का पुत्र अमस्याह उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(यहोआहाज का राज्य)

१३. अहस्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआशा के तेईसवें बरस

- में यहूदा का पुत्र यहोआहाज शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और सत्रह बरस लौ राज्य करता रहा ।  
 २ और उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है अर्थात् नबात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था उस के पापों के अनुसार वह करता रहा और उन  
 ३ को छोड़ न दिया । सो यहोवा का कोप इस्राएल के विरुद्ध बढ़क उठा और वह उन को अराम के राजा हजाएल और उस के पुत्र बेन्हदद के हाथ में लगातार किये रहा ।  
 ४ तब योआहाज ने यहोवा को मनाया और यहोवा ने उस की सुन ली क्योंकि उस ने इस्राएल पर का अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था ।  
 ५ सो यहोवा ने इस्राएल को एक छुड़ानेद्वारा दिया था और वे अराम के वश से छूट गये और इस्राएली अगले दिनों  
 ६ की नाई फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे । तीभी वे ऐसे पापों से न फिरे जैसे यारोबाम के घराने ने किया और जिन के अनुसार उस ने इस्राएल से पाप कराये थे पर उन में चलते रहे और शोमरोन में अशोरा भी खड़ी रही ।  
 ७ अराम के राजा ने तो यहोआहाज की सेना में से केवल पचास सवार दस रथ और दस हजार प्यादे छोड़ दिये थे क्योंकि उस ने उन को नाश किया और मरद मरद के  
 ८ धूल में मिला दिया था । योआहाज के और सब काम उस ने किये और उस की बीरता यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं  
 ९ लिखा है । निदान यहोआहाज अपने पुरखाओं के संग सोया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई और उस का पुत्र योआशा उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(योआशा का राज्य और एलीशा की मृत्यु)

- १० यहूदा के राजा योआशा के राज्य के सैंतीसवें बरस में यहोआहाज का पुत्र योआशा शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और सोलह बरस राज्य करता रहा ।  
 ११ और उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है अर्थात् नबात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था उस के पापों के अनुसार वह करता रहा और उन  
 १२ से अलग न हुआ । योआशा के और सब काम जो उस

(१) मूल में रौदने के लिये धूल के समान कर दिया था ।

ने किये और जिस बीरता से वह यहूदा के राजा अम-  
 स्याह से लड़ा यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है । निदान योआशा १३ अपने पुरखाओं के संग सोया और यारोबाम उस की गद्दी पर बिराजने लगा और योआशा के शोमरोन में इस्राएल के राजाओं के बीच मिट्टी दी गई है ॥

और एलीशा को वह रोग लग गया था जिस से वह १४ पीछे मर गया सो इस्राएल का राजा योआशा उस के पास गया और उस के ऊपर रोकर कहने लगा हाय मेरे पिता हाय मेरे पिता हाय इस्राएल के रथ और सवारो । एलीशा ने उस से कहा धनुष और तीर ले आ । जब वह १५ उस के पास धनुष और तीर ले आया, तब उस ने इस्राएल १६ के राजा से कहा धनुष पर अपना हाथ लगा । जब उस ने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर धर दिये । तब उस ने कहा पूरब की खिड़की १७ खोल । जब उस ने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा तीर छोड़ दे सो उस ने तीर छोड़ा और एलीशा ने कहा यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात् अराम से छुटकारे का चिन्ह है सो तू अराम में अराम को यहां लौ १८ मार लेगा कि उन का अन्त कर डालेगा । फिर उस ने कहा १९ तीरों को ले और जब उस ने उन्हें लिया तब उस ने इस्राएल के राजा से कहा भूमि पर मार । तब वह तीन बार मार कर ढहर गया । और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित २० होकर कहा तुम्हें तो पांच छः बार मारना चाहिये था ऐसा करने से तो तू अराम को यहां लौ मारता कि उन का अन्त कर डालता पर अब तू उन्हें तीन ही बार मारेगा ॥

सो एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई । बरस २० दिन के भीते पर मोआब के दल देश में आये थे । लोग २१ किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा सो उन्होंने ने उस लोथ को एलीशा की कबर में डाल दिया तब एलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांशों के बल खड़ा हो गया ॥

यहोआहाज के जीवन भर अराम का राजा हजाएल २२ इस्राएल पर अंधेर करता रहा । पर यहोवा ने उन पर २३ अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस बाच्चा के कारण जो उस ने इब्राहीम इसहाक और याकूब से बान्धी थी उन पर कृपादृष्टि की और तब भी न तो उन्हें नाश किया और न अपने सान्धने से निकाल दिया । सो २४ अराम का राजा हजाएल मर गया और उस का पुत्र बेन्हदद उस के स्थान पर राजा हुआ । और यहोआहाज २५ के पुत्र योआशा ने हजाएल के पुत्र बेन्हदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिये जिन्हें उस ने युद्ध करके उस के पिता

यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था । योआश ने उस का तीन बार जीतकर इस्राएल के नगर फिर ले लिये ॥  
(अमस्याह का राज्य)

### १४. इस्राएल के राजा योआहाज के पुत्र योआश के दूसरे बरस में

- १ यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्याह राजा हुआ ।
- २ जब वह राज्य करने लगा तब पच्चीस बरस का था और यरूशलेम में उनतीस बरस लों राज्य करता रहा और उस की माता का नाम यहोआहीन था जो यरूशलेम की थी । उस ने यह किया जो यहोवा के लेखे ठीक है तौभी अपने मूलपुरुष दाऊद की नाई न किया उस ने ठीक अपने पिता योआश के से काम किये । उस के दिनों में ऊंचे स्थान गिराये न गये लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे । जब राज्य उस के हाथ में स्थिर हो गया तब उस ने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्हों ने उस के पिता राजा को मार डाला था ।
- ६ पर उन खूनियों के लड़केवालों को उस ने न मार डाला क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए जिस ने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए । उसी अमस्याह ने लोन की तराई में दस हजार एदेमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उस का नाम योकेल<sup>१</sup> रखवा और वह नाम आज तक चलता है ॥
- ८ तब अमस्याह ने इस्राएल के राजा यहोआश के पास जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था दूतों से कहला भेजा कि आ हम एक दूसरे का साम्हना करे । इस्राएल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यों कहला भेजा कि लबानोन पर के एक भड़बेरी ने लबानोन के एक देवदारु के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे इतने में लबानोन में का एक बनैला पशु पास से चला गया और उध
- १० भड़बेरी को रौंद डाला । तू ने एदेमियों को जीता तो है इसलिये तू फूल उठा है<sup>२</sup> उसी पर बढ़ाई मारता हुआ घर में रह जा तू अपनी हानि के लिये यहाँ क्यों हाथ डालेगा जिस से तू क्या बरन यहूदा भी नीचा खाएगा ।
- ११ पर अमस्याह ने न माना सो इस्राएल के राजा यहोआश ने चढ़ाई की और उस ने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का

साम्हना किया । और यहूदा इस्राएल से हार गया और १२ एक एक अपने अपने डेरे को भागा । तब इस्राएल का १३ राजा यहोआश यहूदा के राजा अमस्याह को जो अहज्याह का पोता और यहोआश का पुत्र था बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को गया और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रैमी फाटक से कोनेवाले फाटक लों चार सौ हाथ गिरा दिये । और जितना सोना चांदी और १४ जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भयडारों में मिले उन सब को और बन्धक लोगों को भी लेकर वह शोमरोन को लौट गया । यहोआश के और १५ काम जो उस ने किये और उस की वीरता और उस ने किस रीति यहूदा के राजा अमस्याह से युद्ध किया यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है । निदान योआश अपने पुरखाओं के संग १६ सोया और उसे इस्राएल के राजाओं के बीच शोमरोन में मिट्टी दी गई और उस का पुत्र यारोवाम उस के स्थान पर राजा हुआ ॥\*

यहोआहाज के पुत्र इस्राएल के राजा यहोआश १७ के मरने के पीछे योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह पन्द्रह बरस जीता रहा । अमस्याह के और १८ काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं । जब यरूशलेम में उस के विरुद्ध १९ राजद्रोह की गोष्ठी की गई तब वह लाकीश को भाग गया सो उन्होंने ने उस के लिये लाकीश लों भेजकर उस को वहाँ मार डाला । तब वह घोड़ों पर रखकर यरूश- २० लेम में पहुँचाया गया और वहाँ उस के पुरखाओं के बीच उस को दाऊदपुर में मिट्टी दी गई । तब सारी २१ यहूदी प्रजा ने अजर्याह को जो सेलह बरस का था लेकर उस के पिता अमस्याह के स्थान पर राजा कर दिया । जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सोया २२ उस के पीछे अजर्याह ने एलत को हड़ करके यहूदा के वश में फिर कर लिया ॥

(दूसरे यारोवाम का राज्य)

यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य २३ के पन्द्रहवें बरस में इस्राएल के राजा योआश का पुत्र यारोवाम शोमरोन में राज्य करने लगा और एकतालीस बरस लों राज्य करता रहा । उस ने वह किया जो यहोवा २४ के लेखे बुरा है अर्थात् नबात के पुत्र यारोवाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था उस के पापों के अनुसार वह करता रहा और उन से वह अलग न हुआ । उस ने २५ इस्राएल का सिवाना हमात की घाटी से ले अराबा के ताल लों ज्यों का त्यों कर दिया जैसे कि इस्राएल के

(१) अर्थात् ईश्वर का दबाया ।

(२) मूल में तैरे मन ने तुझे उठाया है ।

परमेश्वर यहोवा ने अमिसै के पुत्र अपने दास गयेये-  
 २६ रवासी योना नबी के द्वारा कहा था । क्योंकि यहोवा ने  
 इस्राएल का दुःख देखा कि बहुत ही कठिन है बरन  
 क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बच्चा न रहा और न  
 २७ इस्राएल के लिये कोई सहायक था । यहोवा ने न कहा  
 या कि मैं इस्राएल का नाम भरती पर<sup>२</sup> से मिटा  
 डालूँ परन्तु उस ने योआशा के पुत्र यारोबाम के द्वारा  
 २८ उन को छुटकारा दिया । यारोबाम के और सब काम जो  
 उस ने किये और कैसे पराक्रम के साथ उस ने युद्ध  
 किया और दमिश्क और हमात को जो पहले यहूदा के  
 राज्य में थे इस्राएल के वश में फिर कर लिया यह सब  
 क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं  
 २९ लिखा है । निदान यारोबाम अपने पुरखाओं के संग जो  
 इस्राएल के राजा वे सोया और उस का पुत्र जकर्याह  
 उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(अजर्थाह का राज्य)

१५. इस्राएल के राजा यारोबाम के

सताईसवें बरस में यहूदा

२ के राजा अमस्याह का पुत्र अजर्थाह राजा हुआ ।  
 जब वह राज्य करने लगा तब सोलह बरस का था और  
 यरूशलेम में बावन बरस लों राज्य करता रहा और उस  
 की माता का नाम यकोल्याह था जो यरूशलेम की थी ।  
 ३ जैसे उस का पिता अमस्याह वह किया करता था जो  
 यहोवा के लेखे ठीक है वैसे ही वह भी करता था ।  
 ४ लौभी ऊंचे स्थान गिराये न गये प्रजा के लोग तब भी  
 ५ उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे । यहोवा ने उस  
 राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन लों कौढ़ा रहा  
 और अलग एक घर में रहता था और योताम नाम  
 राजपुत्र उस के घराने के काम पर ठहरकर देश के लोगों  
 ६ का न्याय करता था । अजर्थाह के और सब काम जो  
 उस ने किये सो क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की  
 ७ पुस्तक में नहीं लिखे हैं । निदान अजर्थाह अपने पुरखाओं  
 के संग सोया और उस को दाऊदपुर में उस के पुरखाओं  
 के बीच मिट्टी दी गई और उस का पुत्र योताम उस के  
 स्थान पर राजा हुआ ॥

(जकर्याह का राज्य)

८ यहूदा के राजा अजर्थाह के अड़तीसवें बरस में  
 यारोबाम का पुत्र जकर्याह इस्राएल पर शोमरोन में राज्य  
 ९ करने लगा और छः महीने राज्य किया । उस ने अपने  
 पुरखाओं की नाई वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है  
 अर्थात् नबात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप

(१) मूल में यहूदा । (२) मूल में आशाश के तब ।

कराया था उस के पापों के अनुसार वह करता रहा और  
 उन से वह अलग न हुआ । और याबेश के पुत्र शल्लूम २०  
 ने उस से राजद्रोह की गोष्ठी करके उस को प्रजा के  
 सम्हने मारा और उस का घात करके उस के स्थान पर  
 राजा हुआ । जकर्याह के और काम इस्राएल के राजाओं २१  
 के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं । यो ही यहोवा का २२  
 वह वचन पूरा हुआ जो उस ने येहू से कहा था कि तेरे  
 परपोते के पुत्र लों तेरी सन्तान इस्राएल की यही पर  
 बिराजती आएगी और बैठा ही हुआ ॥

(शल्लूम का राज्य)

यहूदा का राजा उज्जिम्याह<sup>३</sup> के उनतालीसवें बरस २३  
 में याबेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महीने  
 भर शोमरोन में राज्य करता रहा । क्योंकि गादी के पुत्र २४  
 मनहेम ने तिस्रा से शोमरोन की जाकर याबेश के पुत्र  
 शल्लूम को वही मारा और उसे घात करके उस के स्थान  
 पर राजा हुआ । शल्लूम के और काम और उस ने राज- २५  
 द्रोह की जो गोष्ठी की यह सब इस्राएल के राजाओं के  
 इतिहास की पुस्तक में लिखा है । तब मनहेम ने तिस्रा २६  
 से जाकर सब निवासियों और आस पास के देश समेत  
 तिप्सह को इस कारण मार लिया कि तिप्सहियों ने उस के  
 लिये फाटक न खोले थे सो उस ने उसे मार लिया और उस  
 में जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं उन सभी को चीर डाला ॥

(मनहेम का राज्य)

यहूदा के राजा अजर्थाह के उनतालीसवें बरस में २७  
 गादी का पुत्र मनहेम इस्राएल पर राज्य करने लगा  
 और दस बरस लों शोमरोन में राज्य करता रहा । उस २८  
 ने वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है अर्थात् नबात  
 के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था  
 उस के पापों के अनुसार वह करता रहा और उन से वह  
 जीवन भर अलग न हुआ । अशूर के राजा पूल ने देश २९  
 पर चढ़ाई की और मनहेम ने उस को हजार किस्कार  
 चान्दी इस इच्छा से दी कि वह मेरा सहायक होकर  
 राज्य को मेरे हाथ में स्थिर रखे । यह चान्दी अशूर २०  
 के राजा को देने के लिये मनहेम ने बड़े बड़े धनवान्  
 इस्राएलियों से ले ली एक एक पुरुष को पचास पचास  
 शेकेल चान्दी देनी पड़ी सो अशूर का राजा देश को २१  
 छोड़कर लौट गया । मनहेम के और काम जो उस ने  
 किये वे सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की  
 पुस्तक में नहीं लिखे हैं । निदान मनहेम अपने पुरखाओं २२  
 के संग सोया और उस का पुत्र पकसाह उस के स्थान  
 पर राजा हुआ ॥

(३) अर्थात् अजर्थाह ।

(पकह्याह और पेकह का राज्य)

- २३ यहूदा के राजा अजर्याह के पचासवें बरस में मनहेम का पुत्र पकह्याह शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और दो बरस लों राज्य करता रहा । उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है अर्थात् नबात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था उस के पापों के अनुसार वह करता रहा और उन से वह अलग न हुआ । उस के सदाँर रमल्याह के पुत्र पेकह ने उस से राजद्रोह की गोष्ठी करके शोमरोन के राजभवन के गुम्मत में उस को और उस के संग अर्गोव और अर्ये को मारा और पेकह के संग पचास गिलादी पुरुष थे और वह उस का घात करके उस के स्थान पर राजा हुआ ।
- २६ पकह्याह के और सब काम जो उस ने किये सो इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं ॥

(पेकह का राज्य)

- २७ यहूदा के राजा अजर्याह के बावनवें बरस में रमल्याह का पुत्र पेकह शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और बीस बरस लों राज्य करता रहा । उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है अर्थात् जैसे पाप नबात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था उस के पापों के अनुसार वह करता रहा और उन से वह अलग न हुआ । इस्राएल के राजा पेकह के दिनों में अशूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर ने आकर इथ्योन अबेल्बे-स्माका यानेह केदेश और हासेर नाम नगरों को और गिलाद और गालील बरन नताली के सारे देश को भी ले लिया और उन के लोगों को बंधुआ करके अशूर को ले गया । उज्रियाह के पुत्र योताम के बीसवें बरस में एला के पुत्र हीशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उस के स्थान पर राजा हुआ । पेकह के और सब काम जो उस ने किये सो इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं ॥

(योताम का राज्य)

- ३२ रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा पेकह के दूसरे बरस में यहूदा के राजा उज्रियाह का पुत्र योताम राजा हुआ । जब वह राज्य करने लगा तब पचीस बरस का था और यरूशलेम में सोलह बरस लों राज्य करता रहा और उस की माता का नाम यरूशा था वही सादोक की बेटी थी । उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे ठीक है अर्थात् जैसा उस के पिता उज्रियाह ने किया था ठीक वैसा ही उस ने किया । तीभी उंचे स्थान गिराये न गये प्रजा के लोग उन पर तब भी बलि चढाते और धूप बलाते रहे । यहोवा के भवन के उपरली फाटक का

हसी ने बनाया । योताम के और सब काम जो उस ने किये वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं । उन दिनों में यहोवा अराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा । निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सोया और अपने मूलपुरुष दाऊद के पुर में अपने पुरखाओं के बीच उस को मिट्टी दी गई और उस का पुत्र आहाज उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(आहाज का राज्य)

१६. रमल्याह के पुत्र पेकह के सत्रहवें बरस में यहूदा के राजा योताम

का पुत्र आहाज राज्य करने लगा । जब आहाज राज्य करने लगा तब वह बीस बरस का था और सोलह बरस लों यरूशलेम में राज्य करता रहा और अपने मूल-पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उस के परमेश्वर यहोवा के लेखे ठीक है । परन्तु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल-चला बरन उन जातियों के धनीने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से देश से निकाल दिया था उस ने अपने बेटे को भाग में होम कर दिया । और उंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढाया और धूप जलाया करता था । तब अराम के राजा रसीन और रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा पेकह ने यरूशलेम पर लड़ने के लिये चढाई की और उन्हीं ने आहाज को घेर लिया पर युद्ध करके उन से कुछ न बन पड़ा । उस समय अराम के राजा रसीन ने एलत को अराम के बश में करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया तब अरामी लोग एलत को गये और आज के दिन लों वहां रहते हैं । और आहाज ने दूत भेजकर अशूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर के पास कहला भेजा कि मुझे अपना दास बरन बेटा जान कर चढाई कर और मुझे अराम के राजा और इस्राएल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं । और आहाज ने यहोवा के भवन में और राजभवन के भण्डारों में जिनना सोना चान्दी मिली उसे अशूर के राजा के पास भेंट करके भेज दिया । उस की मानकर अशूर के राजा ने दमिश्क पर चढाई की और उसे लेकर उस के लोगों को बंधुआ करके कीर को ले गया और रसीन को मार डाला । तब राजा आहाज अशूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर से भेंट करने के लिये दमिश्क को गया और वहां की वेदां देखकर उस की सारी बनावट के अनुसार उस का नकशा ऊरियह याजक के पास नमूना करके भेज दिया । ठीक

इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था ऊरिय्याह याजक ने राजा आहाज के दमिश्क से आने लोहक वेदी बना दी । जब राजा दमिश्क से आया तब उस ने उस वेदी को देखा और उस के निकट जाकर उस पर बलि चढ़ाये । उसी वेदी पर उस ने अपना होमबलि और अन्नबलि जलाया और अर्घ दिया और मेलबलियों का लोह छिड़क दिया । और पीतल की जो वेदी यहोवा के साम्हने रहती थी उस को उस ने भवन के साम्हने से अर्थात् अपनी वेदी और यहोवा के भवन के बीच से हटाकर उस वेदी की उत्तर ओर रख दिया । तब राजा आहाज ने ऊरिय्याह याजक को यह आशा दी कि भोर के होमबलि सांफ के अन्नबलि राजा के होमबलि और उस के अन्नबलि और सब साधारण लोगों के होमबलि और अर्घ बड़ी वेदी पर चढ़ाया कर और होमबलियों और मेलबलियों का सब लोह उस पर छिड़क और पीतल की वेदी के विषय में विचार करूंगा । राजा आहाज की इस आशा के अनुसार ऊरिय्याह याजक ने किया । फिर राजा आहाज ने पायो की पटरियों को काट डाला और हैदियों को उन पर से उतार दिया और गंगाल को उन पीतल के बेलों पर से जो उस के तले थे उतारकर पत्थरों के फर्श पर धर दिया । और विश्राम के दिन के लिये जो छाया हुआ स्थान भवन में बना था और राजा के बाहर से प्रवेश करने का फाटक उन दोनों को उस ने अशूर के राजा के कारण यहोवा के भवन में छिपा दिया । आहाज के और काम जो उस ने किये वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं । निदान आहाज अपने पुरखाओं के संग सोया और उसे उस के पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उस का पुत्र हिजकिय्याह उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(होरो का राज्य और इस्राएली राज्य का टूट जाना)

## १७. यहूदा

के राजा आहाज के बारहवें बरस में एला का पुत्र होरो शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और नौ बरस लों राज्य करता रहा । उस ने वही किया जो यहोवा के लेखे बुरा है पर इस्राएल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उस से पहिले थे । उस पर अशूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होरो उस के अधीन होकर उस को भेंट देने लगा । पर अशूर के राजा ने होरो को राजद्रोह की गोष्ठी करनेहारा जान लिया क्योंकि उस ने सो नाम मिस्र के राजा के पास

(१) मूल में हुआ ।

दूत भेजे और अशूर के राजा के पास सालियाना भेंट भेजनी छोड़ दी इस कारण अशूर के राजा ने उस को बन्द किया और बेड़ी डालकर बन्दीगृह में डाल दिया । तब अशूर के राजा ने सारे देश पर चढ़ाई की और शोमरोन को जाकर तीन बरस लों उसे धरे रहा । होरो के नौवें बरस में अशूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया और इस्राएल को अशूर में ले जाकर हलह में और हाबोर और गोजान नदियों के पास और मादियों के नगरों में बसाया । इस का यह कारण है कि यद्यपि इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन को मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था तौमी उन्होंने उस के विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना था, और जिन जतियों को यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से देश से निकाला था उन की रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चले थे । और इस्राएलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किये जैसे कि पहरुओं के गुम्मत से ले गढ़वाने नगर लों अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिये थे, और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले लाठे और अशोरा खड़े कर लिये थे, और ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों की नाईं जिन को यहोवा ने उन के साम्हने से निकाल दिया था धूप जलाया और यहोवा को रिस दिलाने के योग्य बुरे काम किये थे, और मूर्तों की उपासना की जिस के विषय यहोवा ने उन से कहा था कि तुम यह काम न करना । तौमी यहोवा ने सब नदियों और सब दर्शियों के द्वारा इस्राएल और यहूदा को यह कहकर चिताया था कि अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यग्रस्था में अनुधार जो मैं ने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास नदियों के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है मेरी आज्ञाओं और विधियों को मान्य करो । पर उन्होंने ने न माना बरन अपने उन पुरखाओं की नाईं जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था वे भी हर्षाले बने । और वे उस की विधियां और अपने पुरखाओं के साथ उस की वाचा और जो चितौनिया उस ने उन्हें दी थीं उन को तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिये जिस से वे आप निहम्मे हो गये और अपने चारों ओर का उन जातियों के पीछे भी जिन के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उन के से काम न करना । बरन उन्होंने ने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और दो बछड़ों की मूर्तें डालकर बनाई और अशोरा भी बनाई और आज्ञाश

(२) मूल में करी गदनवाले ।

के सारे गण्य को दण्डवत् की और बाल की उपासना की,  
 १७ और अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया  
 और भावी कहनेहारों से पूछने और टोना करने लगे और  
 जो यहोवा के लोले बुरा है जि। से वह रिसियाता भी है  
 १८ उस के करने को अपनी इच्छा से बिक गये? । इस कारण  
 यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने  
 साम्हने से दूर कर दिया यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई  
 १९ बचा न रहा। और यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा  
 की आज्ञाएं न मानीं बरन जो विधियां इस्राएल ने चलाईं  
 २० थीं उन पर चलने लगे। सो यहोवा ने इस्राएल की सारी  
 सन्तान को छोड़कर उन को दुःख दिया और लूटनेहारों  
 के हाथ कर दिया और अन्त में उन्हें अपने साम्हने से  
 २१ निकाल दिया। उस ने इस्राएल को तो दाऊद के घराने  
 के हाथ से छीन लिया और उन्होंने ने नबात के पुत्र यारो-  
 बाम को अपना राजा किया और यारोबाम ने इस्राएल  
 को यहोवा के पीछे चलने से खींचकर उन से बड़ा पाप  
 २२ कराया। सो जैसे पाप यारोबाम ने किये थे वैसे ही पाप  
 इस्राएली भी करते रहे और उन से अलग न हुए।  
 २३ अन्त को यहोवा ने इस्राएल को अपने साम्हने से दूर कर  
 दिया जैसे कि उस ने अपने सब दास नबियों के द्वारा  
 कहा था। सो इस्राएल अपने देश से निकाल कर अशूर  
 को पहुंचाया गया जहां वह आज के दिन लों रहता है ॥  
 (इस्राएल के देश में अन्य जातिवालों का बसाया जाना)  
 २४ और अशूर के राजा ने बाबेल कृत अन्वाहमात  
 और सपर्वैम नगरों से लोगों को लाकर इस्राएलियों के स्थान  
 पर शोमरोन के नगरों में बसाया, सो वे शोमरोन के  
 २५ अधिकारी होकर उस के नगरों में रहने लगे। जब वे  
 वहां पहिले पहिल रहने लगे तब यहोवा का भय न  
 मानते थे इस कारण यहोवा ने उन के बीच सिंह भेजे जो  
 २६ उन को मार डालने लगे। इस कारण उन्हो ने अशूर के  
 राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तू ने उन के  
 देशों से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दी हैं वे उस  
 देश के देवता की रीति नहीं जानतीं इस से उस ने उन  
 के बीच सिंह भेजे हैं जो उन को इसलिये मार डालते हैं  
 २७ कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब  
 अशूर के राजा ने आज्ञा दी कि जिन याजकों को तुम  
 उस देश से ले आये उन में से एक को वहां पहुंचा दो  
 और वे वहां जाकर रहें और वह उन को उस देश के  
 २८ देवता की रीति सिखाए। सो जो याजक शोमरोन से  
 निकाले गये थे उन में से एक जाकर बेटेल में रहने  
 लगा और उन को सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस

(१) मूल में उन्होंने ने अपने को बच डाला।

रीति मानना चाहिये। तो भी एक एक जाति के लोगों २९  
 ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाये  
 हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखी जो  
 शोमरोनियों ने बनाये थे। बाबेल के मनुष्यों ने तो ३०  
 सुन्नोतबनोत को कृत के मनुष्यों ने नेर्गल को हमात के  
 मनुष्यों ने अशीमा को, और अश्वियों ने निभज और ३१  
 तर्त्तक को स्थापन किया और सपर्वैमी लोग अपने बेटों  
 को अद्रम्मेलोक और अनम्मेलोक नाम सपर्वैम के देव-  
 ताओं के लिये होम करके चढ़ाने लगे। यों वे यहोवा का ३२  
 भय मानते तो थे पर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे  
 स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे जो ऊंचे स्थानों के  
 भवनों में उन के लिये बलि करते थे। वे यहोवा का भय ३३  
 मानते तो थे पर उन जातियों की रीति पर जिन के बीच  
 से वे निकाले गये थे अपने अपने देवताओं की भी  
 उपासना करते रहे। आज के दिन लों वे अपनी पहिली ३४  
 रीतियों पर चलते हैं वे यहोवा का भय नहीं मानते और  
 न तो अपनी विधियों और नियमों पर और न उस  
 व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने  
 याकूब की सन्तान को दी थी जिस का नाम उस ने  
 इस्राएल रक्खा था। उन से यहोवा ने वाचा बांधकर ३५  
 उन्हें यह आज्ञा दी थी कि तुम पराये देवताओं का भय  
 न मानना न उन्हें दण्डवत् करना न उन की उपासना  
 करना न उन को बलि चढ़ाना। परन्तु यहोवा जो तुम को ३६  
 बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से  
 निकाल ले आया तुम उसी का भय मानना उसी को  
 दण्डवत् करना और उसी को बलि चढ़ाना। और जो जो ३७  
 विधियां और नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाएं उस  
 ने तुम्हारे लिये लिखीं उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते  
 रहो और पराये देवताओं का भय न मानना। और जो ३८  
 वाचा मैं ने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न बिसराना और  
 पराये देवताओं का भय न मानना। केवल अपने परमे- ३९  
 श्वर यहोवा का भय मानना वही तुम को तुम्हारे सब  
 शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तौभी उन्होंने ने न माना पर ४०  
 वे अपनी पहिली रीति के अनुसार करते रहे। सो वे जातियां ४१  
 यहोवा का भय मानतीं तो थीं और अपनी खुदी हुई मूर्तों  
 की उपासना भी करते रहे और जैसे वे करते थे वैसे ही  
 उन के बेटे पोते भी आज के दिन लों करते हैं ॥

(हिजकिय्याह के राज्य का आरम्भ)

१८. एला के पुत्र इस्राएल के राजा देशे के  
 तीसरे बरस में यहूदा के राजा  
 आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य २

(२) मूल में उन के पुरखा।



- करने लगा तब पचास बरस का था और उनतीस बरस लौं यरूशलेम में राज्य करता रहा और उस की माता का नाम अवी था जो जकर्याह की बेटा थी। जैसे उस के मूल-पुरुष दाऊद ने बही किया था जो यहोवा के लेखे डीक है वैसा ही उस ने भी किया। उस ने ऊंचे स्थान गिरा दिये लाठी को तोड़ दिया अशेरा को काट डाला और पीतल का जो साँप मूसा ने बनाया था उस को उस ने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उस के लिये धूप जलाते थे और उस ने उस का नाम नहुशतान<sup>१</sup> रक्खा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उस के पीछे यहूदा के सब राजाओं में कोई उस के बराबर न हुआ और न उस से पहिले भी ऐसा कोई हुआ था। और वह यहोवा से लगा रहा और उस के पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञाएँ यहोवा ने मूसा को दी थीं उन का वह पालन करता रहा। सो यहोवा उस के संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उस का काम सुफल होता था और उस ने अशूर के राजा से बलवा करके उस की अधीनता छोड़ दी। उस ने आस पास के देश समेत आज्ञा लौं क्या पहरुओं के गुम्मत क्या गढ़वाले नगर के सब पलितियों को मार लिया ॥
- ९ राजा हिजकिय्याह के चौथे बरस में जो एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे का सातवाँ बरस था अशूर के राजा शलमनेसर ने शोमरोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। और तीन बरस के बीतने पर उन्होंने ने उस को ले लिया सो हिजकिय्याह के छठवें बरस में जो इस्राएल के राजा होशे का नौवाँ बरस था शोमरोन ले लिया गया।
- ११ तब अशूर का राजा इस्राएल को बंधुआ करके अशूर में ले गया और हलह में और हाबोर और गोजान नदियों के पास और मादियों के नगरों में बसा दिया। इस का कारण यह था कि उन्होंने ने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी बरन उस की बाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञाएँ यहोवा के दास मूसा ने दी थीं उन को टाला और न उन को सुना न उन के अनुसार किया ॥
- (सन्हेरीब की चढ़ाई और उस की सेना का विनाश)
- १२ हिजकिय्याह राजा के चौदहवें बरस में अशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उन को ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा कि मुझ से अपना ध हुआ मेरे पास से लौट जा और जो भार

(१) अर्थात् पीतल का डकका।

तु मुझ पर डाले उस को मैं उगळंगा। सो अशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिये तीन सौ किक्कार चाँदी और तीस किक्कार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चाँदी यहोवा के भवन और राजभवन के भयदारी में मिली उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मन्दिर के किवाड़ों से और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ाया था सोने को छीलकर अशूर के राजा को दे दिया। तौभी अशूर के राजा ने तर्तान रबसारीस और रबशा के को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया सो वे यरूशलेम को गये और वहाँ पहुँचकर उपरले पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। और जब उन्होंने ने राजा को पुकारा तब हिजकिय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजबराने के काम पर था और शेब्ना जो मन्त्री था और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखनेहारा था ये तीनों उन के पास बाहर निकल गये। रबशा के ने उन से कहा हिजकिय्याह से कहे कि महाराजाधिराज अर्थात् अशूर का राजा यों कहता है कि तू यह क्या भरोसा करता है। तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिये युक्ति और पराक्रम हैं सो केवल बात ही बात है तू किस पर भरोसा रखता है कि तू ने मुझ से बलवा किया है। सुन तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात् मिस्र पर भरोसा रखता है उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उस के हाथ में चुभकर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरून अपने सब भरोसा रखनेहारों के लिये ऐसा ही होता है। फिर यदि तुम मुझ से कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है तो क्या वह बही नहीं है जिस के ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के साम्हने जो यरूशलेम में है दण्डवत् करना। सो अब मेरे स्वामी अशूर के राजा के पास कुछ बंधक रख तब मैं तुम्हे दो हजार घोड़े दूंगा क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं। फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा नकारके? क्योंकि रथों और सवारी के लिये मिस्र पर भरोसा रखता है। क्या मैं ने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिये चढ़ाई की है यहोवा ने मुझ से कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब हिजकिय्याह के पुत्र एल्याकीम और शेब्ना और योआह ने रबशा के से कहा अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर क्योंकि हम उसे

(२) मूल में कर्मचारियों में से एक गवनेर का भी मुंह फेर के।

समझते हैं और हम से यहूदी भाषा में शहरपनाह पर  
 २७ बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर । रबशाके ने उन से  
 कहा क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के वा  
 तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है क्या उस ने  
 मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे  
 हैं इसलिये कि तुम्हारे संग उन को भी अपनी विद्या खाना  
 २८ और अपना मूत्र पीना पड़े । तब रबशाके ने खड़ा हो  
 यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा महाराजाधिराज  
 २९ अर्थात् अशूर के राजा की बात सुनो । राजा यों कहता  
 है कि हिजकिय्याह तुम को भुलाने न पाए क्योंकि वह  
 ३० तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा । और वह तुम से यह  
 कहकर यहोवा पर भी भरोसा कराने न पाए कि यहोवा  
 निश्चय हम को बचाएगा और यह नगर अशूर के राजा  
 ३१ के वश में न पड़ेगा । हिजकिय्याह की मत सुनो अशूर  
 का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो' और  
 मेरे पास निकल आओ तब अपनी अपनी दाखलता और  
 ३२ अंजीर के वृक्ष के फल खाओ और अपने अपने कुएड का  
 गानी पीओ । पीछे मैं आकर तुम को ऐसे देश में ले  
 जाऊंगा जहां तुम्हारे देश के समान अनाज और नये दाख-  
 मधु का देश रोटी और दाखवारियों का देश जलपाइयों  
 और मधु का देश है वहां तुम मरोगे नहीं जीते रहोगे सो  
 जब हिजकिय्याह यह कह कर तुम को बहकाए कि यहोवा  
 ३३ हम को बचाएगा तब उस की न सुनना । क्या और  
 जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के  
 ३४ राजा के हाथ से कभी बचाया है । हमारा और अर्पाद के  
 देवता कहां रहे सपर्वेम हेना और इब्वा के देवता कहां  
 रहे क्या उन्होंने ने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है ।  
 ३५ देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिस ने  
 अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो फिर क्या यहोवा  
 ३६ यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा । पर सब लोग चुप  
 रहे और उस के उत्तर में एक बात न कही क्योंकि राजा  
 ३७ की ऐसी आज्ञा थी कि उस को उत्तर न देना । तब हिजकि-  
 य्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर था और  
 शेब्ना जो मन्त्री था और आसाप का पुत्र थोआह जो  
 इतिहास का लिखनेहारा था इन्होंने हिजकिय्याह के पास  
 बख फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई ॥

१६. जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब

वह अपने बख फाड़ टाट ओढ़कर  
 २ यहोवा के भवन में गया । और उस ने एल्याकीम को  
 जो राजघराने के काम पर था और शेब्ना मन्त्री को और

याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस  
 के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया । उन्होंने उस ३  
 से कहा हिजकिय्याह यों कहता है कि आज का दिन संकट  
 और उलहने और निन्दा का दिन है बच्चे जन्मने पर हुए ४  
 पर जननी को जनने का बल न रहा । क्या जानिये कि  
 तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने जिसे उस  
 के स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निन्दा  
 करने को भेजा है और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने  
 सुनी हैं उन्हें दपटे सो तू इन बच्चे हुओं के लिये जो रह ५  
 गये हैं प्रार्थना कर । सो हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी ५  
 यशायाह के पास आये । तब यशायाह ने उन से कहा ६  
 अपने स्वामी से कहो कि यहोवा यों कहता है कि जो बचन  
 तू ने सुने हैं जिन के द्वारा अशूर के राजा के जनों ने  
 मेरी निन्दा की है उन के कारण मत डर । सुन मैं उस ७  
 के मन में प्रेरणा करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर  
 अपने देश को लौट जाय और मैं उस को उसी के देश  
 में तलवार से मरवा डालूंगा ॥

सो रबशाके ने लौटकर अशूर के सजा को लिब्ना ८  
 नगर से युद्ध करते पाया क्योंकि उस ने सुना था कि वह ९  
 लाकीश के पास से उठ गया है । और जब उस ने कूश के ९  
 राजा तिर्हाका के विषय यह सुना कि वह मुझ से लड़ने  
 को निकला है तब उस ने हिजकिय्याह के पास दूतों को १०  
 यह कहकर भेजा कि, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह १०  
 से यों कहना कि तेरा परमेश्वर जिस का तू भरोसा करता  
 है यह कह कर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम  
 अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा । देख तू ने तो ११  
 सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा किया  
 है कि उन्हें सत्यानाश ही किया है फिर क्या तू बचेगा ।  
 गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहनेहारे १२  
 पदेनी जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया क्या  
 उन में से किसी जाति के देवताओं ने उस को बचा लिया ।  
 हमारा का राजा और अर्पाद का राजा और सपर्वेम नगर १३  
 का राजा और हेना और इब्वा के राजा ये सब कहाँ रहे ।  
 इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा १४  
 तब यहोवा के भवन में जाकर उस को यहोवा के साम्हने  
 फैला दिया । और यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे इस्ता- १५  
 एल के परमेश्वर यहोवा हे करुओं पर बिराजनेहारे पृथिवी  
 के सारे राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है आकाश १६  
 और पृथिवी को तू ही ने बनाया है । हे यहोवा कान १६  
 लगाकर सुन हे यहोवा आंख खोलकर देख और सन्देश

(१) मूल में मेरे साथ आशोर्वाद करी ।

(२) मूल में प्रार्थना उठा ।

के वचनों को सुन ले जो उस ने जीवते परमेश्वर  
 १७ को निन्दा करने को कहला भेजे हैं । हे यहोवा सब तो  
 है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उन के  
 १८ देशों को उजाड़ा है, और उन के देवताओं को भाग में  
 भोंका है क्योंकि वे ईश्वर न थे वे मनुष्यों के बनाये हुए  
 काठ और पत्थर ही के थे इस कारण वे उन को नाश  
 १९ करने पाये । सो अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा तू हमें  
 उस के हाथ से बचा कि पृथिवी के राज्य राज्य के लोग  
 जान लें कि केवल तू ही यहोवा है ॥

२० तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास  
 यह कहला भेजा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों  
 कहता है कि जो प्रार्थना तू ने अशूर के राजा सन्हेरीब  
 २१ के विषय मुझ से की उसे मैं ने सुना है । उस के विषय  
 में यहोवा ने यह वचन कहा है कि सिथ्योन की कुमारी  
 कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्टों में उड़ाती है  
 २२ यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है । तू ने जो  
 नाम धराई और निन्दा की है सो किस की की है और तू  
 जो बड़ा बोल बोला और धमकाया है सो किस के  
 विरुद्ध किया है इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तू ने किया है ।  
 २३ अपने दूतों के द्वारा तू ने प्रभु की निन्दा करके कहा  
 है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर बरन  
 लवानोन के बीच तक चढ़ आया हूँ सो मैं उस के ऊंचे  
 ऊंचे देवदारुओं और अच्छे अच्छे सनौवरो को काट  
 डालूंगा और उस में जो सब से ऊंचा दिग्ने का स्थान हो  
 उस में और उस के वन में की फलदाई बरियों में धुंरूंगा ।  
 २४ मैं ने तो खुदवाकर परदेश का पानी पिया और मिस्र की  
 २५ नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा । क्या तू ने  
 नहीं सुना कि प्राचीनकाल से मैं ने यही ठहराया और  
 अगले दिनों से इस की तैयारी की थी सो अब मैं ने यह  
 पूरा भी किया है कि तू गढ़वाले नगरों को खण्डहर ही  
 २६ खण्डहर कर दे । इसी कारण उन में के रहनेदारों का  
 बल घट गया वे विस्मित और लज्जित हुए वे मैदान के  
 छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और  
 ऐसे अनाज के समान हो गये जो बड़ने से पहिले सूख  
 २७ जाता है । मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और  
 लौट आना जानता हूँ और यह भी कि तू मुझ पर अपना  
 २८ क्रोध भड़काता है । इस कारण कि तू मुझ पर अपना  
 क्रोध भड़काता और तेरे अधिमान की बातें मेरे कानों में  
 पड़ी हैं मैं तेरी नाक में अपनी नखेल डालकर और तेरे  
 मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है

उसी से तुझे लौटा दूंगा । और तेरे लिये यह चिन्ह होगा  
 कि इस बरस तो तुम उसे खाओगे जो आप से आर उगे २९  
 और दूसरे बरस उसे जो उरगल हो सो खाओगे और  
 तीसरे बरस बीज बोने और उसे लवने पाओगे दाल की  
 बरियाँ लगाने और उन का फल खाने पाओगे । और ३०  
 यहूदा के घगने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे  
 और फलेंगे भी । क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और ३१  
 सिथ्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे । यहोवा  
 अपनी जलन के कारण यह काम करेगा । सो यहोवा ३२  
 अशूर के राजा के विषय में यों कहता कि वह इस  
 नगर में प्रवेश करने बरन इस पर एक तीर भी मारने  
 न पाएगा और न वह ढाल लेकर इस के साम्हने आने  
 वा इस के विरुद्ध दमदमा बनने पाएगा । जिस मार्ग से ३३  
 वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर  
 में प्रवेश न करने पाएगा यहोवा की यही वाशी है ।  
 और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त ३४  
 इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा ॥

उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के तू ने निक- ३५  
 लकर अशूरियों की छावनी में एक लाख पचासी हजार  
 पुरुषों को मारा और भोर का जब लोग सबेरे उठे तब  
 क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी हैं । सो अशूर का ३६  
 राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने  
 लगा । वहां वह अपने देवता निस्सोक के मन्दिर में दण्डवत् ३७  
 कर रहा था कि अद्रमेटेक और सरेसेम ने उस को तल-  
 वार से मारा और अरागत देश में भाग गये और उसी  
 का पुत्र एहर्हदोन उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(हिजकिय्याह का मृत्यु से वचन)

२०. उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी

हुआ कि मरा चाहता था और  
 आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उस के पास जाकर कहा  
 यहोवा यों कहता है कि अपने घगने के विषय जो आशा  
 देनी हो सो दे क्योंकि तू नहीं बचेगा मर जाएगा । तब २  
 उस ने भोंत को और मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके  
 कहा, हे यहोवा मैं खिन्ती करता हूँ स्मरण कर कि मैं ३  
 सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर  
 चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है सोई मैं  
 करता आया हूँ तब हिजकिय्याह बिलक बिलक रोया ।  
 यशायाह नगर के बीच में जाने न पाया कि ४  
 यहोवा का यह वचन उस के पास पहुंचा कि, लौटकर ५

(१) मूल में अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाईं ।

(२) मूल में नीचे की ओर जड़ ।

(३) मूल में तेरे साम्हने ।

- मेरी वजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं ने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे भाव देखे हैं सुन मैं तुम्हें चंगा करने पर हूँ परसों तु यहोवा के भवन में जाने पाएगा ।
- ६ और मैं तेरी आयु पन्द्रह बरस और बढ़ा दूंगा और अशूर के राजा के हाथ से तुम्हें और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूँगा । तब यशायाह ने कहा अजीरों की एक टिकिया लो जब उन्होंने ने उसे लेकर ८ फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया । हिजकिय्याह ने तो यशायाह से पूछा था यहाँवा जो मुझे ऐसा चंगा करेगा कि मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूँगा इस ९ का क्या चिन्ह होगा । यशायाह ने कहा था यहोवा जो अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा इस बात का तेरे लिये यहोवा की और से यह चिन्ह होगा क्या धूपबड़ी की छाया दस अंश बढ़ जाए वा दस अंश लौट जाए ।
- १० हिजकिय्याह ने कहा छाया का दस अंश आगे बढ़ना तो हलकी बात है सो ऐसा न होए छाया दस अंश पीछे ११ लौट जाए । तब यशायाह नबी ने यहोवा को पुकारा और आहूज की धूपबड़ी की छाया जो दस अंश ढल चुकी थी यहोवा ने उस को पीछे की ओर लौटा दिया ॥
- (हिजकिय्याह का गर्व और उस का दण्ड)
- १२ उस समय बलदान का पुत्र बरोदकबलदान जो बाबेल का राजा था उस ने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उस के पास पत्री और भेंट भेजी ।
- १३ उन के लाने हारों की मानकर हिजकिय्याह ने उन कं अपने अनमोल पदार्थों का सारा भण्डार और चान्दी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पारा भर और अपने भण्डारों में जो जो वस्तुएं थीं सो सब दिखाई हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उस ने उन्हें न दिखाई हो । तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जा कर पूछा वे मनुष्य क्या कह गये और कहाँ से तेरे पास आये थे हिजकिय्याह ने कहा वे तो दूर देश से ५ अर्थात् बाबेल से आये थे । फिर उस ने पूछा तेरे भवन में उन्होंने ने क्या क्या देखा है हिजकिय्याह ने कहा जो कुछ मेरे भवन में है सो सब उन्होंने ने देखा मेरे भण्डारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं ने उन्हें न दिखाई हो ।
- ६ यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा यहोवा का वचन सुन ले । ऐसे दिन आनेवाले हैं जिन में जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रक्खा हुआ आज के दिन लो भण्डारों में है सो सब बाबेल को उठ

जाएगा यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी । और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हों उन में से भी कितनों १८ को वे बन्धुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबेल के राजभवन में रहेंगे । हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा १९ यहोवा का वचन जो तु ने कहा है सो भला ही है फिर उस ने कहा क्या मेरे दिनों में शांति और सबाई बनी न रहेगी । हिजकिय्याह के और सब काम और उस की सागी २० बीरता और किस रीति उस ने एक पोखरा और नाली खुदवाकर नगर में पानी पहुँचा दिया यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है । निदान हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया २१ और उस का पुत्र मनश्शे उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(मनश्शे का राज्य)

## २९. जब मनश्शे राज्य करने लगा तब

बारह बरस का था और यरूशलेम में पचपन बरस लो राज्य करता रहा और उस की माता का नाम हेप्सीथा था । उस ने उन जातियों के २ चिनौने कामों के अनुसार जिन को यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है । उस ने उन ऊँचे स्थानों को ३ जिन को उस के पिता हिजकिय्याह ने नाश किया था फिर बनाया और इस्राएल के राजा अहाश की नाई बाल के लिये वेदियां और एक अशेरा बनवाई और आकाश के सारे गण को दण्डवत् करता और उन की उपासना करता रहा । और उस ने यहोवा के उस भवन में वेदियां ४ बनाईं जिस के विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मैं अपना नाम रक्खूँगा । बरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उस ने आकाश के सारे गण के लिये वेदियां बनाईं । फिर उस ने अपने बेटे का आग में ६ होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओम्हों और भूत सिद्धिवालों से व्यवहार करता था बरन उस ने ऐसे बहुत से काम किये जो यहोवा के लेखे बुरे हैं और जिन से वह रिभयता है । और अशेरा की जो मूरत उस ने खुदवाई उस को ७ उस ने उस भवन में स्थापन किया जिस के विषय यहोवा ने दाऊद और उस के पुत्र सुलैमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिस को मैं ने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं सदा लो अपना नाम रक्खूँगा । और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था के अनुसा करने की चौकसी करें तो मैं ऐसा न करूँगा कि जो देश मैं ने इस्राएल के पुरखाओं को दिया था

- ९ उस से वे फिर निकलकर मारे मारे फिरेंगे । पर उन्होंने ने न माना बरन मनश्शे ने उन को यहां लों भटका दिया कि उन्होंने ने उन जातियों से भी बढ़कर बुवाई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के साग्हने से विनाश किया था ।
- १० सो यहोवा ने अपने दास नबियों के द्वारा कहा कि,
- ११ यहूदा के राजा मनश्शे ने जो ये धिनीने काम किये और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उस से पहिले ये की थीं उन से भी अधिक बुराइयां कीं और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूरतों की पूजा कराके उन्हें पाप में
- १२ फंसाया है । इस कारण इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि सुनो मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डाला चाहता हूं कि जो कोई उस का समाचार
- १३ सुने वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा । और जो मापने की डोरी मैं ने शोमरोन पर डाली और जो साहुल मैं ने अदाब के घराने पर लटकाया सोई यरूशलेम पर डालूंगा और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को
- १४ पोंछता है वह उसे पोंछकर उलट देता है । और मैं अपने निज भाग के बचे हुआओं को त्यागकर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं की लूट और
- १५ धन ही जाएंगे । इस का कारण यह है कि जब से उन के पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन लों वे वह काम करके जो मेरे लेखे बुरा है मुझे रिस दिलाते
- १६ आते हैं । मनश्शे ने तो न केवल वह काम कराके जां यहोवा के लेखे बुरा है यहूदियों से पाप कराया बरन निर्दोषों का खून बहुत किया यहां लों कि उस ने यरूशलेम
- १७ को एक सिरे से दूसरे सिरे लों खून से भर दिया । मनश्शे के और सब काम जो उस ने किये और जो पाप उस ने किया यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की
- १८ पुस्तक में नहीं लिखा है । निदान मनश्शे अपने पुरखाओं के संग सोया और उसे उस के भवन की बारी में जो उज्जा की बारी कहावती थी मिट्टी दी गई और उस का पुत्र आमोन उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(आमोन का राज्य)

- १९ जब आमोन राज्य करने लगा तब वह बाईस बरस का था और यरूशलेम में दो बरस लों राज्य करता रहा और उस की माता का नाम मशुल्लेमेत था जो येत्साबासी हारूस की बेटी थी । और उस ने अपने पिता मनश्शे की नाईं वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा
- २० है । और वह अपने पिता की सी सारी चाल चला और जिन मूरतों की उपासना उस का पिता करता था

उन की वह भी उपासना करता और उन्हें दखवत् करता था । और उस ने अपने पितरों के परमेश्वर २२ यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला । और आमोन के कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी २३ करके राजा को उसी के भवन में मार डाला । तब २४ साधारण लोगों ने उन सभी को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उस के पुत्र योशिय्याह को उस के स्थान पर राजा किया । आमोन के और काम जो उस ने किये सो क्य २५ यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं । उसे भी उज्जा की बारी में उस की निज कबर में २६ मिट्टी दी गई और उस का पुत्र योशिय्याह उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(योशिय्याह के राज्य में व्यवस्था की पुस्तक का मिलना)

२२. जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब

आठ बरस का था और यरूशलेम में एकतीस बरस लों राज्य करता रहा और उस की माता का नाम यदीदा था जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी । उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे ठीक है २ और जिस मार्ग पर उस का मूलपुरुष दाऊद चला ठीक उसी पर वह भी चला और उस से न तो दहिनी और मुड़ और न बाईं ओर ॥

अपने राज्य के अठारहवें बरस में राजा योशिय्याह ३ ने असल्याह के पुत्र शापान मंत्री को जो मशुल्लाम का पोता था यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा कि, हिलकिय्याह महायाजक के पास जाकर कह कि जो चान्दी यहोवा के भवन में लाई गई है और डेवढीदारों ने प्रजा से इकट्ठी की है उस को जड़कर, उन काम कराने ४ हारों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिये हैं फिर वे उस को यहोवा के भवन में काम करनेहारे कारीगरों को दें इसलिये कि उस में जो कुछ टूटा फूटा हो ५ उस की वे भरम्मत करें, अर्थात् बढइयों राजा और संगतराशों को दें और भवन की भरम्मत के लिये लकड़ी ६ और गढे हुए पत्थर मोल लेने में लगाएँ । पर जिन के हाथ में वह चान्दी सौंपी गई उन से लेखा न लिया गया क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे । और ७ हिलकिय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है तब हिलकिय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह ८ उसे पढ़ने लगा । तब शापान मंत्री ने राजा के पास ९ लौटकर यह सन्देश दिया कि जो चान्दी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने बैलियों में डाल कर उन को सौंप

(१) मूल में बरस के दोनों कान सनसना जायेंगे ।

- १० दिया जो यहोवा के भवन के काम करनेहारे हैं । फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बताया कि हिलकिय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है तब शापान
- ११ उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा । व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े ।
- १२ फिर उस ने हिलकिय्याह याजक शापान के पुत्र अहीकाम मीकायाह के पुत्र अकबोर शापान मंत्री और असाया नाम अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी कि, यह पुस्तक जो मिली है उस की बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सारे यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी थीं और जो कुछ हमारे लिये लिखा है उस को न माना था । सो हिलकिय्याह याजक और अहाकाम अकबोर शापान और असाया ने यहूदा नबिया के पास जाकर उस से बातें कीं वह तो उस शरूलूम का स्ना थी जो तिकवा का पुत्र और हर्ईस का पोता और वज्र का रखवाला था और वह स्त्री यरूशलेम के नये टोले में रहती थी । उस ने उन से कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जिस पुरुष ने तुम को
- १५ मेरे पास भेजा उस से यह कहो कि, यहोवा यों कहता है कि सुन जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उस की सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इस के
- १७ निवासियों पर विपत्ति डाला चाहता हूँ । उन लोगों ने मुझे त्याग करके पराये देवताओं के लिये धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर
- १८ भड़केगी और फिर शांत न होगी । पर यहूदा का राजा जिस ने तुम्हें यहोवा से पूछने का भेज दिया उस से तुम यों कहे कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है
- १९ इसलिये कि तु वे बातें सुनकर, दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इस के निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और स्त्राप दिया करेंगे तु ने यहोवा के साम्हने अपना स्त्रि नवाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे साम्हने रोया है इस कारण मैं ने भी तेरी
- २० सुनी है यहोवा की यही वाणी है । इसलिये सुन मैं ऐसा करूँगा कि तु अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तु शांति से अपनी कबर को पहुँचाया जाएगा और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डाला चाहता हूँ उस में से तुझे अपनी आंखों से कुछ देखना न पड़ेगा । तब उन्होंने ने लौटकर राजा को यही सन्देश दिया ॥

(बोशियाह का मूर्तिपूजा को बन्द करना)

## २३. राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरानियों को अपने पास इकट्ठा

बुलगा भेजा । और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों बरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया तब उसने जो बाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उस की सारी बातें उन को पढ़कर सुनाई । तब राजा ने खंभे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आज्ञा की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा और अपने सारे मन और सारे जीव से उस की आज्ञाएं चितोनियां और विधियां पाला करूँगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूँगा । और सारी प्रजा वाचा में भागी हुई । तब राजा ने हिलकिय्याह महायाजक और उस के नीचे के याजकों और डेवदीदारों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे गण के लिये बने हैं उन सबों को यहोवा के मन्दिर में से निकाल ले आओ तब उस ने उन को यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फेंककर उन को राख बेतल को पहुँचा दी । और जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊँचे स्थानों में और यरूशलेम के आस पास के स्थानों में धूप जलाने के लिये ठहराया था उन को और जो बाल और सूर्य चन्द्रमा राशिचक्र और आकाश के सारे गण को धूप जलाते थे उन को भी राजा ने दूर कर दिया । और वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में लिवा ले गया और वहीं उस को फेंक दिया और पीसकर बुकनी कर दिया तब वह बुकनी साधारण लोगों की कबरों पर फेंक दी । फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे जहाँ स्त्रियां अशेरा के लिये पढ़ें बिना करती थीं उन को उस ने ढा दिया । और उस ने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा से बेशेबा लों के उन ऊँचे स्थानों को जहाँ उन याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया और फाटकों में के ऊँचे स्थान अर्थात् जो स्थान नगर के यहेशू नाम हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जानेवाले की बाईं ओर थे उन को उस ने ढा दिया । तीमी ऊँचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आये वे अखमीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे । फिर उस ने तोपेत जो हिजोमर्शियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया इसलिये कि कोई

(१) मूल में खड़ी ।

अपने बेटे वा बेटरी को मोलक के लिये आग में होम कर  
 ११ के न चढाए । और जो धोड़ यहूदा के राजाओं ने सूर्य  
 को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नतन्मेंके  
 नाम खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे उन को उस ने  
 दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फुंक दिया ।  
 १२ और आहाज की अठारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के  
 राजाओं को बनाई हुई थीं और जो वेदिया मनश्शे ने  
 यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थीं उन को राजा  
 ने ढाकर पीस डाला और उन की बुकनी किद्रोन नाले में  
 १३ फेंक दी । और जो ऊंचे स्थान इस्राएल के राजा  
 सुलैमान ने यरूशलेम की पूरब ओर और विकारी नाम  
 पहाड़ी की दक्खिन अलग अशतरेत नाम सीदनियों की  
 धिनीनी देवी और कमेश नाम मोझावियों के धिनीने  
 देवता और मिलकोम नाम अम्मोनियों के धिनीने देवता  
 के लिये बनवाये थे उन को राजा ने अशुद्ध कर दिया ।  
 १४ और उस ने लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट  
 डाला और उन के स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिये ।  
 १५ फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात  
 के पुत्र यारोवाम ने बनाया था जिस ने इस्राएल से पाप  
 कराया था उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उस ने ढा  
 दिया और ऊंचे स्थान को फुंककर बुकना कर दिया और  
 १६ अशेरों को फुंक दिया । और योशिय्याह ने फिरके वहां  
 के पहाड़ पर की कबरो को देखा सो उस ने भेजकर उन  
 कबरो से हड्डियां निकलवा दीं और वेदी पर जलवाकर  
 उस को अशुद्ध किया यह यहोवा के उस वचन के अनुसार  
 हुआ जो परमेश्वर के उस जन ने पुकारकर कहा था जिस  
 १७ ने इन्हीं बातों की चर्चा पुकारके की थी । तब उस ने  
 पूछा जो खंभा मुझे देख पड़ता है वह क्या है तब  
 नगर के लोगों ने उस से कहा वह परमेश्वर के उस जन  
 की कबर है जिस ने यहूदा से आकर इसी काम की  
 चर्चा पुकरके की जो तू ने बेतेल की वेदी पर किया है ।  
 १८ तब उस ने कहा उस को छोड़ दो उस की हड्डियों को  
 कोई न दटाए सो उन्होंने उस को हड्डियां उस नथी को  
 हड्डियों के संग जो शोमरोन से आया था रहने दी ।  
 १९ फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में  
 थे जिन को इस्राएल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को  
 रिस दिलाई थी उन सभी को योशिय्याह ने गिरा दिया  
 और जैसा जैसा उस ने बेतेल में किया था वैसा वैसा उन  
 २० से भी किया । और उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक  
 वहां थे उन सभी को उस ने उन्हीं वेदियों पर बलि किया  
 और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को  
 लौट गया ॥

(योशिय्याह का उत्तर चरित्र)

और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आशा दी कि २१  
 इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उस के  
 अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिये फसह का पर्व  
 मानो । निश्चय ऐसा फसह न तो उन न्यायियों के दिनों में २२  
 माना गया था जो इस्राएल का न्याय करते थे और न  
 इस्राएल वा यहूदा के राजाओं के सारे दिनों में माना गया  
 था । राजा योशिय्याह के अठारहवें बरस में यहोवा के लिये २३  
 यरूशलेम में यह फसह माना गया । फिर ओके भूत- २४  
 सिद्धिवाले यह देवता मूर्तों और जितनी धिनीनी वस्तुएं  
 यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं देख पड़ीं उन  
 सभी को योशिय्याह ने इस मनसा से नाश किया कि  
 व्यवस्था को जो बातें उस पुस्तक में लिखी थीं जो हिल-  
 किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी उन  
 को वह पूरी करे । और उस के तुल्य न तो उस से पहिले २५  
 कोई ऐसा राजा हुआ और न उस के पीछे ऐसा कोई  
 राजा उठा जो मूसा की सारी व्यवस्था के अनुसार अपने  
 सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से यशोवा की  
 और फिरा हो । तौभी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा २६  
 कोर शान्त न हुआ जो इस कारण से यहूदा पर भड़का  
 हुआ था कि मनश्शे ने यहोवा को रिस पर रिस दिलाई  
 थी । सो यहोवा ने कहा था जैसे मैं ने इस्राएल को २७  
 अपने साम्हने से दूर किया वैसा ही यहूदा को भी दूर  
 करूंगा और इस यरूशलेम नगर से जिन मैं ने चुना और  
 इस भवन से जिसके विषय मैं ने कहा कि यह मेरे नाम का  
 निवास होगा मैं हाथ उठाऊंगा । योशिय्याह के और सब २८  
 काम जो उस ने किये सो क्या यहूदा के राजाओं के  
 इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं । उस के दिनों में २९  
 फिरोनको नाम मिस्र का राजा अशशूर के राजा के बिरुद्ध  
 परात महान लो गया सो योशिय्याह राजा उस का  
 साम्हना करने को गया और उस ने उस को मगिहो में  
 देखकर मार डाला । तब उस के कर्मचारियों ने उस को ३०  
 लोथ एक रथ पर रख मगिहो से ले जाकर यरूशलेम को  
 पहुंचाई और उस की निज कबर में रख दी । तब साधारण  
 लोगों ने योशिय्याह के पुत्र योआहाज को लेकर उस का  
 अभिषेक करके उस के पिता के स्थान पर राजा किया ॥

(यहोआहाज का राज्य)

जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह तेईस ३१  
 बरस का था और तीन महीने लो यरूशलेम में राज्य  
 करता रहा और उस की माता का नाम हमूतल था जो  
 लिन्नावासी यिर्मयाह की बेटरी थी । उस ने ठीक अपने ३२  
 पुरखाओं की नाई वही किया जो यशोवा के लेखे बुरा

३३ है । उस को फिरौन-नकी ने हमत देश के रिबला नगर में बांध रक्खा इसलिये कि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए फिर उस ने देश पर सी किष्कार चान्दी और ३४ किष्कार भर सोना चुभाना किया । तब फिरौन-नकी ने योशिय्याह के पुत्र एल्याकीम को उस के पिता के स्थान पर राजा किया और उस का नाम बदलकर यहोयाकीम रक्खा और यहोआहाज को ले गया सो यहोआहाज ३५ मिस्र में जाकर वहीं मर गया । यहोयाकीम ने फिरौन को वह चान्दी और सोना तो दिया पर देश पर इसलिये कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके अर्थात् देश के सब लोगों में से जितना जिस पर लगान लगा उतनी चान्दी और सोना उस से फिरौन-नकी को देने के लिये ले लिया ॥

(यहोयाकीम का राज्य)

३६ जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह पच्चीस बरस का था और ग्यारह बरस तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उस की माता का नाम जबीदा था जो ३७ रूमावासी अदायाह की बेटी थी । उस ने ठीक अपने पुरखाओ की नाई वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है । उस के दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर १ २४ ने चढ़ाई की और यहोयाकीम तीन बरस लों उस के अधीन रहा पीछे उस ने फिरके उस से बलवा २ किया । तब यहोवा ने उस के विरुद्ध और यहूदा को नाश करने के लिये उस के विरुद्ध कसदियों अराभियों मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेज दिये यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उस ने अपने दास नबियों ३ के द्वारा कहा था । निःसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ इस लिये कि वह उन को अपने साम्हने से दूर करे यह मनशे के सब पापों के कारण हुआ । और ४ निर्दोषों के उस खून के कारण जो उस ने किया था क्योंकि उस ने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया ५ था जिस को यहोवा क्षमा करने का न था । यहोयाकीम के और सब काम जो उस ने किये सो क्या यहूदा के ६ राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं । निदान यहोयाकीम अपने पुरखाओं के संग सोया और उस का ७ पुत्र यहोयाकिन उस के स्थान पर राजा हुआ । और मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी न आया क्योंकि बाबेल के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर परात महानद लों जितना देश मिस्र के राजा का था उस सब को अपने बश में कर लिया था ॥

(यहोयाकीम का राज्य)

८ जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह अठारह

बरस का था और तीन महीने लों यरूशलेम में राज्य करता रहा और उस की माता का नाम नहुरता था जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी । उस ने ठीक अपने पिता की ९ नाई वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है । उस के दिनों १० में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया । और जब ११ बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे तब वह आप वहां आ गया । और यहूदा का १२ राजा यहोयाकीम अपनी माता और कर्मचारियों हाकिमी और खोजों का संग लेकर बाबेल के राजा के पास गया और बाबेल के राजा ने अपने राज्य के आठवे बरस में उन को पकड़ लिया । तब उस ने यहोवा के भवन में १३ और राजभवन में रक्खा हुआ सारा धन वहां से निकाल लिया और सोने के जो पात्र ह्साएल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मन्दिर में रखे थे उन सब को उस ने टुकड़े टुकड़े कर डाला जैसे कि यहोवा ने कहा था । फिर वह सारे यरूशलेम को अर्थात् सब हाकिम १४ और सब धनवानों को जो मिलकर दस हजार थे और सब कारीगरो और लोहारों को बंधुआ करके ले गया यहां लों कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कई न रह गया । और वह यहोयाकीम को बाबेल में ले गया १५ और उस की माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंधुआ करके यरूशलेम से बाबेल को ले गया । और सब धनवान जो सात हजार थे और १६ कारीगर और लोहार जो मिलकर एक हजार थे और वे सब बीर और युद्ध के योग्य थे उन्हें बाबेल का राजा बंधुआ करके बाबेल को ले गया । और बाबेल के राजा ने उस १७ के स्थान पर उस के चचा मरन्याह को राजा ठहराया और उस का नाम बदलकर सिदकिय्याह रक्खा ॥

(सिदकिय्याह का राज्य)

जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह इक्कीस १८ बरस का था और यरूशलेम में ग्यारह बरस लों राज्य करता रहा और उस की माता का नाम हमूतल था जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी । उस ने ठीक यहोवा १९ कीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा के लेखे बुरा है । क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम २० और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अन्त में उस ने उन को अपने साम्हने से दूर किया । और सिदकिय्याह ने २५ बाबेल के राजा से बलवा किया । उस के राज्य के नौवें बरस के दसवें महीने के दसवें दिन को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उस के पास आवनी



- २ करके उस के चारों ओर कोट बनाये । और नगर सिद-  
कियाह राजा के ग्यारहवें बरस लौ घेर हुआ रहा ।  
३ चौथे महीने के नौवें दिन से नगर में महंगी यहाँ लौ बढ़  
गई कि देश के लोगों के लिये कुछ खाने को न रहा ।  
४ तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों  
भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था  
उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे । कसदी  
तो नगर को घेरे हुए थे पर राजा ने अराबा का मार्ग  
५ लिया । तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया  
और उस को यरीहो के पास के अराबा में जा लिया और  
उस की सारी सेना उस के पास से तितर बितर हो गई ।  
६ सो वे राजा को पकड़कर रिबला में बाबेल के राजा के  
७ पास ले गये और उस के दण्ड की आज्ञा दी गई । और  
उन्होंने सिदकियाह के पुत्रों को उस के साम्हने घात  
किया और सिदकियाह की आँखें फोड़ डालीं और उसे  
पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल को ले गये ॥

(यरुशलेम का विनाश)

- ८ बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के उन्नीसवें बरस के  
पाँचवें महाने के सातवें दिन को जल्लादों का प्रधान  
नबूजर्दान जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था सो  
९ यरुशलेम में आया । और उस ने यहोवा के भवन और  
राजभवन और यरुशलेम के सब घरों को अर्थात् हर एक  
१० बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया । और यरुशलेम  
के चारों ओर की सब शहरपनाह को कसदियों की सारी  
सेना ने जो जल्लादों के प्रधान के संग थी ढा दिया ।  
११ और जो लोग नगर में रह गये थे और जो लोग बाबेल  
के राजा के पास भाग गये थे और साधारण लोग जो  
रह गये थे इन सभी को जल्लादों का प्रधान नबूजर्दान  
१२ बंधुआ करके ले गया । पर जल्लादों के प्रधान ने देश के  
कंगालों में से कितनों को दाख की आरियों की सेवा और  
१३ किसनई करने को छोड़ दिया । और यहोवा के भवन में  
जो पीतल के खंभे थे और पाये और पीतल का गंगाल  
जो यहोवा के भवन में था इन को कसदी तोड़कर उन का  
१४ पीतल बाबेल को ले गये । और हथियारों फावड़ियों  
चिमटाओं धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को जिन से  
१५ सेवा टहल होती थी वे ले गये । और करछे और कटो-  
रियाँ जो सोने की थीं और जो कुछ चान्दी का था सो  
१६ सब सोना चान्दी जल्लादों का प्रधान ले गया । दोनों खंभे  
एक गंगाल और जो पाये सुलैमान ने यहोवा के भवन के  
लिये बनाये थे इन सब वस्तुओं का पीतल तौल से बाहर  
१७ था । एक एक खंभे की ऊँचाई अठारह अठारह हाथ  
की थी और एक एक खंभे के ऊपर तीन तीन हाथ ऊँची

पीतल की एक एक कंगनी थी और एक एक कंगनी पर  
चारों ओर जाली और अनार जो बने थे सो सब पीतल  
के थे । और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक १८  
और उस के नीचे के याजक सपन्याह और तीनों डेबली-  
दारों को पकड़ लिया । और नगर में से उस ने एक १९  
हाकिम पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था और  
जो पुरुष राजा के सन्मुख रहा करते थे उन में से पाँच  
जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो लोगों  
को सेना में भरती किया करता था और लोगों में से साठ  
पुरुष जो नगर में मिले, इन को जल्लादों का प्रधान २०  
नबूजर्दान पकड़कर रिबला में बाबेल के राजा के पास ले  
गया । तब बाबेल के राजा ने उन्हें हमत देश के रिबला २१  
में ऐसा मारा कि वे मर गये । यों यहूदी बंधुआ करके  
अपने देश से निकाल लिये गये । और जो लोग यहूदा २२  
देश में रह गये जिन को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर  
ने छोड़ दिया उन पर उस ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह  
को जो शापान का पोता था अधिकारी ठहराया ॥

(गदल्याह को हत्या)

जब दलों के सब प्रधानों ने अर्थात् नतन्याह के पुत्र २३  
इश्माएल कारेहू के पुत्र योहानान नतोपाई तन्हुमेत के  
पुत्र सरायाह और किसी माफाई के पुत्र याजन्याह ने  
और उन के जनों ने यह सुना कि बाबेल के राजा ने  
गदल्याह को अधिकारी ठहराया है तब वे अपने अपने  
जनों समेत मिस्र में गदल्याह के पास आये । और २४  
गदल्याह ने उन से और उन के जनों से किरिया लाकर  
कहा कसदियों के सिपाहियों से न डरो देश में रहते हुए  
बाबेल के राजा के अधीन रहो तब तुम्हारा भला होगा ।  
परन्तु सातवें महीने में नतन्याह का पुत्र इश्माएल जो २५  
एलीशामा का पोता और राजवंश का था उस ने दस  
जन संग ले गदल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि  
वह मर गया और जो यहूदी और कसदी उस के संग  
मिस्र में रहते थे उन को भी मार डाला । तब क्या छोटे २६  
क्या बड़े सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों  
के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहे ॥

(यहोयाकीन का बंधाया जाना)

फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के २७  
सैंतीसवें बरस में अर्थात् जिस बरस में बाबेल का राजा  
एबील्मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ उसी के  
बारहवें महीने के सत्ताईसवें दिन को उस ने यहूदा के  
राजा यहोयाकीन को बन्दीगृह से निकालकर बड़ा पद  
दिया, और उस से मधुर मधुर बचन कहकर जो राजा २८  
उस के संग बाबेल में बंधुए थे उन के सिंहासनो से

२९ उस के सिंहासन को अधिक ऊंचा किया, और उस के बन्दीपद के बल बदला दिये और उस ने ३० जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया । और

दिन दिन के खर्च के लिये राजा के यहाँ से नित्य का खर्च ठहराया गया तो उस के जीवन भर समाचार मिलता रहा ॥

## इतिहास नाम पुस्तक । पहिला भाग ।

(आदम आदि की वंशावलिवा)

२ १. आदम शेत एनोश, केनान महललेल  
३ येरेद, हनोक मत्शोलह सेमेक,  
४ नूह शेम हाम और येपेत ॥  
५ येपेत के पुत्र गोमेर मागोग मादै यावान तूबल  
६ मेशोक और तीरास । और गोमेर के पुत्र अशकनज  
७ दीपत और तोगर्मा । और यावान के पुत्र एलीशा  
तर्शाश और कित्ती और रेदानी लोग ॥  
८, ९ हाम के पुत्र कूश मिस्र पूत और कनान । और  
कूश के पुत्र सबा हबीला सबता रामा और सव्त्का और  
१० रामा के पुत्र शबा और ददान । और कूश ने निम्नोद  
११ को जन्माया पृथिवी पर पहिला थीर वही हुआ । और  
१२ मिस्र ने लूदी अनामी लहाबी नसही पत्रूसी कसलूही  
१३ (वहाँ से पलिशती निकले) और कसोरी जन्माये । कनान  
१४ ने अपना जेठा सीदान और हित्त, और यबूसी एभोरी  
१५, १६ गिर्गाशी, हिब्वा अर्का सीनी, अर्बदी समारी और  
हमाती जन्माये ॥  
१७ शेम के पुत्र एलाम अश्शर शर्षक्षद लूद अराम  
१८ उस हूल गेतेर और मेशोक । और अर्पक्षद ने शैलह और  
१९ शैलह ने एबेर को जन्माया । और एबेर के दो पुत्र  
उत्पन्न हुए एक का नाम पेलैग इस कारण रक्खा गया  
कि उस के दिनों में पृथिवी बाँटी गई और उस के भाई  
२० का नाम योक्तान था । और योक्तान ने अल्मोदाद  
२१, २२ शैलेप इसमवित येरह, रहदोराम ऊजाल दिन्ला,  
२३ एबाल अबीमाएल शबा, ओपीर हबीला और योबाब  
को जन्माया ये ही सब योक्तान के पुत्र हुए ॥  
२४, २५, २६ शेम अर्पक्षद शैलह, एबेर पेलैग रू, सल्लग  
२७ नाहोर तेरह, अब्राम सैई इब्राहीम भी कहलाता है ।  
२८ इब्राहीम के पुत्र इसहाक और इस्माएल ॥  
२९ इन की वंशावलियां ये हैं । इस्माएल का जेठा  
३० नबायेत, फिर केदार अदबेल मिससाम मिश्मा वूमा

मस्ता हदद तेमा यत्र नापीर केदमा ये इस्माएल के ३१  
पुत्र हुए ॥

फिर कत्रा जो इब्राहीम की रखेली थी उस के ये ३२  
पुत्र हुए अर्थात् बह जिम्नान योक्तान मदान मिद्यान  
यिशबाक और शूह को जनी । योक्तान के पुत्र शबा और  
ददान । और मिद्यान के पुत्र एपा एपेर हनीक अबीदा ३३  
और एलदा ये सब कत्रा के पुत्र हुए ॥

इब्राहीम ने इसहाक को जन्माया । इसहाक के पुत्र ३४  
एसाव और इस्राएल ॥

एसाव के पुत्र एलीपज रूपल यूश यालाम और ३५  
कोरह । एलीपज के पुत्र तेमान ओमार सपी गाताम ३६  
कनज तिम्ना और अमालेक । रूपल के पुत्र नहत जेरह ३७  
शम्मा और मिजा । फिर सेईर के पुत्र, लोतान शोबाल ३८  
सिबोन अना दीशोन एसेर और दीशान । और लोतान ३९  
के पुत्र होरी और होमाम, और लोतान की बहिन तिम्ना  
थी । शोबाल के पुत्र अल्लयान मानहत एबाल शपी और ४०  
ओनाम और सिबोन के पुत्र अय्या और अना । अना ४१  
का पुत्र दीशोन । और दीशोन के पुत्र हम्नान एशवान  
यिन्नान और करान । एसेर के पुत्र, बिल्हान जावान और ४२  
याकान । और दीशान के पुत्र ऊस और अरान ॥

जब इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया ४३  
या तब एदोम के देश में ये राजा हुए अर्थात् बोर का  
पुत्र बेला और उस की राजधानी का नाम दिन्हाबा  
था । बेला के मरने पर बोसाई जेरह का पुत्र योबाब ४४  
उस के स्थान पर राजा हुआ । और योबाब के मरने पर ४५  
तेमानियों के देश का हूशाम उस के स्थान पर राजा  
हुआ । फिर हूशाम के मरने पर बदह का पुत्र हदद उस ४६  
के स्थान पर राजा हुआ यह वही है जिस ने मिद्यानियों  
को मोबाब के देश में मार लिया और उस की राजधानी  
का नाम अबीत था । और हदद के मरने पर मन्नेकाई ४७  
सम्ला उस के स्थान पर राजा हुआ । फिर सम्ला के ४८

मरने पर शाऊल जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर  
 ५९ का था सो उस के स्थान पर राजा हुआ । और शाऊल  
 के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान उस के स्थान  
 ५० पर राजा हुआ । और बाल्हानान के मरने पर हदद  
 उस के स्थान पर राजा हुआ और उस की राजधानी  
 का नाम पाई था और उस की स्त्री का नाम महेतबेल  
 था जो मेजाहाब की नतिनी और मत्रेद की बेटी थी ।  
 ५१ और हदद मर गया फिर एदोम के अधिपति ये थे अर्थात्  
 तिम्ना अधिपति अल्था अधिपति यतेत अधिपति,  
 ५२ ओहोलीगामा अधिपति एला अधिपति पीनोन अधिपति,  
 ५३ कनज अधिपति तेमान अधिपति मिन्नार अधिपति,  
 ५४ मग्दीएल अधिपति ईराम अधिपति । एदोम के ये  
 अधिपति हुए ॥

## २. इस्राएल के ये पुत्र हुए रूबेन शिमोन लेवी यहूदा इसाकार जबू-

२ लून, दान यूसुफ बिन्यामीन नताली गार और आशेर ॥

(यहूदा की वंशावली)

३ यहूदा के ये पुत्र हुए एर ओनान और शेला उस  
 के ये तीनों पुत्र बतशूर नाम एक कनानी स्त्री जनी और  
 यहूदा का जेठ एर यहोवा के लेखे बुरा था इस कारण  
 ४ उस ने उस को मार डाला । यहूदा की बहूतामार उस के  
 जन्माये परेस और जेरह की जनी । यहूदा के सब पुत्र  
 ५, ६ पांच हुए । परेस के पुत्र हेसोन और हामूल । और  
 जेरह के पुत्र जिम्नी एतान हेमान कलकोल और दारा  
 ७ सब मिलकर पांच । फिर कर्मी का पुत्र आकार जो अर्पण  
 की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इस्राएलियों  
 ८ का कष्ट देनेद्वारा हुआ । और एतान का पुत्र अजर्याह ।  
 ९ हेसोन के जो पुत्र उत्पन्न हुए यरहोल राम और कलूवै ।  
 १० और राम ने अम्मीनादाब को और अम्मीनादाब ने नह-  
 ११ शीन को जन्माया जो यहूदियों का प्रधान हुआ । और  
 १२ नहशोन ने सल्मा को और सल्मा ने ओन्नज को, और  
 ओन्नज ने ओबेद को और ओबेद ने यिशी को जन्माया ।  
 १३ और यिशी ने अपने जेठे एलीआब को और दूसरे अबीना-  
 १४ दाब को तीसरे शिमा को, चौथे नत्नेल को पांचवें रहे  
 १५ को, छठवें ओसेम को और सातवें दाऊद को जन्माया ।  
 १६ इन की बहिनें सरूयाह और अबांगैल थीं । और सरूयाह  
 १७ के पुत्र अबीशी योअब और असाहेल ये तीन । और  
 अबांगैल अमासा को जनी और अमासा का पिता  
 १८ इश्माएली येनेर था । हेसोन के पुत्र कालेब ने अजूबा  
 नाम एक स्त्री से और यरीभोत से बेटे जन्माये और इस

के पुत्र ये हुए' अर्थात् येनेर शोबाब और अर्दीन ।  
 जब अजूबा मर गई तब कालेब ने एप्रांत की ब्याह लीया १९  
 और वह उस के जन्माये हूर को जनी । और हूर ने ऊरी २०  
 को और ऊरी ने बसलेल को जन्माया । इस के पीछे २१  
 हेसोन ने गिलाद के पिता माकीर की बेटी से प्रसंग  
 किया जिसे उस ने तब ब्याह लीया जब वह साठ बरस  
 का था और यह उस के जन्माये सगूब को जनी । और २२  
 सगूब ने याईर को जन्माया जिस के गिलाद देश में  
 तेईस नगर थे । और गशूर और अराम ने याईर की २३  
 बस्तियों को और गांवां समेत कनत को उन से ले लिया  
 ये सब नगर मिलकर साठ थे । ये सब गिलाद के पिता  
 माकीर के पुत्र हुए । और जब हेसोन कालेबेप्राता में २४  
 मर गया तब उस की अबिव्याह नाम स्त्री उस के जन्माये  
 अशहूर को जनी जो तको का पिता हुआ । और हेसोन २५  
 के जेठे यरहोल के ये पुत्र हुए अर्थात् राम जो उस का  
 जेठा था और बूना ओरेन ओसेम और अहिव्याह ।  
 और यरहोल की एक और स्त्री थी जिस का नाम अतारा २६  
 था वह ओनाम की माता हुई । और यरहोल के जेठे २७  
 राम के ये पुत्र हुए अर्थात् मास यामीन और एकेर ।  
 और ओनाम के पुत्र शम्मे और यादा हुए और शम्मे २८  
 के पुत्र नादाब और अबीशूर हुए । और अबीशूर का २९  
 स्त्री का नाम अबीहेल था और वह उस के जन्माये  
 अहवान और मोलीद को जनी । और नादाब के पुत्र ३०  
 सेलेद और अप्पैम हुए सेलेद तो निःसन्तान मर गया ।  
 और अप्पैम के पुत्र यिशी और यिशी का पुत्र ३१  
 शेशान और शेशान का पुत्र अहलै, फिर शम्मे ३२  
 के भाई यादा के पुत्र येतेर और योनातान हुए येतेर  
 तो निःसन्तान मर गया । योनातान के पुत्र पेलेत और ३३  
 जाजा यरहोल के पुत्र ये हुए । शेशान के तो बेटा ३४  
 न हुआ केवल बेटियां हुईं । शेशान के तो यहाँ नाम  
 एक मिस्री दास था । सो शेशान ने उस को अपनी बेटी ३५  
 ब्याह दी और वह उस के जन्माये अत्तै को जनी । और ३६  
 अत्तै ने नातान को नातान ने जाबाद को, जाबाद ने ३७  
 एपलाल को एपलाल ने ओबेद को, ओबेद ने येहू ३८  
 को येहू ने अजर्याह को, अजर्याह ने हेलेल को ३९  
 हेलेल ने एलासा को, एलासा ने सिस्मै को सिस्मै ने ४०  
 शल्लूम को, शल्लूम ने यकम्प्याह को और यकम्प्याह ४१  
 ने एलीशामा को जन्माया । फिर यरहोल के भाई ४२  
 कालेब के ये पुत्र हुए अर्थात् उस का जेठा मेशा जो  
 जीप का पिता हुआ और हेब्रोन के पिता मरिशा के पुत्र

(१) वा कालेब ने अजूबा नाम अपनी स्त्री से यरीभोत को जन्माया  
 और (यरीभोत) के ये पुत्र हुए ।

४३ भी उसी के वंश में हुए । और हेब्रोन के पुत्र केरह तप्पूह  
 ४४ रेकेम और शेमा । और शेमा ने योकांम के पिता रहम  
 ४५ को और रेकेम ने शम्मी को जन्माया । और शम्मी  
 का पुत्र माओन हुआ और माओन बेत्सूर का पिता  
 ४६ हुआ । फिर एपा जो कालेब की रखेली थी सो हारान  
 मोसा और गाजेज को जनी और हारान ने गाजेज को  
 ४७ जन्माया । फिर याहदै के पुत्र रेगेम योताम गेशान  
 ४८ पेलेत एपा और शाप । और माका जो कालेब की  
 ४९ रखेली थी सो शेबेर और तिर्हाना को जनी । फिर यह  
 मदमजा के पिता शाप को और मकबेन और गिबा  
 के पिता शबा को जनी । और कालेब की बेटी अकसा  
 ५० थी । कालेब के सन्तान ये हुए अर्थात् एपाता के  
 जेठे हूर का पुत्र किर्यत्यारीम का पिता शोबाल ।  
 ५१ बेतलेहेम का पिता सल्मा और बेतगादेर का पिता  
 ५२ हारेप । और किर्यत्यारीम के पिता शोबाल के वंश  
 ५३ में हारेप आधे मनुहातवासी, और किर्यत्याीम के कुल  
 अर्थात् यित्री पूती शुमाती और मिश्राई और इन से  
 ५४ साराई और एस्ताओली निकले । फिर सल्मा के वंश  
 में बेतलेहेम और नतोपाई अत्रोतबेत्योआब और आधे  
 ५५ मानहती सोरार, और याबेस में रहनेहारे लेखकों के  
 कुल अर्थात् तिराती शिमाती और सुकाती हुए । ये  
 रेकाब के घाने के मूलपुरुष हम्मत के वंशवाले  
 कर्ना हैं ॥

### ३. दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उस के

जन्मे सो ये हैं जेठा अग्रोन जो  
 यिज्रैली अहानोअम से दूसरा दानिय्येल जो कर्मेली  
 २ अर्जमेल से उत्पन्न हुआ, तीसरा अबशालोम जो गशूर के  
 राजा तल्मे की बेटी माका का पुत्र था चौथा अदोनि-  
 ३ य्याह जो इग्गीत का पुत्र था, गंचवा शफत्याह जो अथी  
 तन से और छठवां यिग्राम जो उस की स्त्री एग्ला से  
 ४ उत्पन्न हुआ । दाऊद के जन्माये हेब्रोन में छः पुत्र उत्पन्न  
 हुए और वहां उस ने साढ़े सात बरस राज्य किया और  
 ५ यरूशलेम में तैंतीस बरस राज्य किया । और यरूशलेम  
 में उस के ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात् शिमा शोबाब नातान  
 और सुलैमान ये चारों अम्मीएल की बेटी बतशू से  
 ६ उत्पन्न हुए । और यिभार एलीशामा एलीपेलेत, नेगह  
 ७ नेपेग थापी, एलीशामा एल्यादा और एलीपेलेत ये नौ  
 ९ पुत्र, ये सब दाऊद के पुत्र थे और इन को छोड़ रखे-  
 लियों के भी पुत्र थे और इन की बहिन तामार थी ।  
 १० फिर सुलैमान का पुत्र रहबाम हुआ रहबाम का अवि-  
 ११ ग्याह अबिय्याह का आसा आसा का यहोशापात, यहो-  
 शापात का योगम योराम का अहज्याह अहज्याह

का योआश, योआश का अमस्याह अमस्याह का १२  
 अजर्याह अजर्याह का योताम, योताम का आहाज १३  
 आहाज का हिजकियाह हिजकियाह का मनशशे,  
 मनशशे का आमोन और आमोन का योशियाह १४  
 पुत्र हुआ । और योशियाह के पुत्र उस का जेठा १५  
 याहानान दूसरा यहोयाकीम तीसरा सिदकियाह चौथा  
 शल्लूम । और यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह इस का १६  
 पुत्र सिदकियाह । और यकोन्याह के पुत्र अस्तीर उस १७  
 का पुत्र शालतीएल, और मल्कीराम पदायाह शेनस्तर १८  
 यकन्याह होशामा और नदन्याह । और पदायाह १९  
 के पुत्र जरुबाबेल और शिमी हुए और जरुबाबेल के  
 पुत्र मशुल्लाम और हनन्याह जिन की बहिन एलोमीत  
 थी, और हशुवा ओहेल बेरेक्याह हशुवा और यूशमे- २०  
 सेद गंच । और हनन्याह के पुत्र पलत्याह और २१  
 यशायाह । और गपायाह के पुत्र अर्नान के पुत्र आंबद्याह  
 के पुत्र और शकन्याह के पुत्र । और शकन्याह का पुत्र २२  
 शमायाह । और शमायाह के पुत्र हत्तूश यिगल बारीह  
 नार्थाह और शगत छः । और नार्थाह के पुत्र एल्योएनै २३  
 हिजकियाह और अर्जाकाम तीन । और एल्योएनै २४  
 के पुत्र हेदब्याह एल्योशीब पलायाह अककूब योहानान  
 दलायाह और अनानी सात ॥

### ४. यहूदा के पुत्र पेरेस हेस्लेन कर्मी हूर

और शोबाल । और शोबाल २  
 के पुत्र रायाह ने यहत को और यहत ने अहूमै और  
 लहद को जन्माया ये साराई कुल हैं । और एताम के ३  
 पिता के ये पुत्र हुए अर्थात् यिज्रैल यिश्मा और यिदाश  
 जिन की बहिन का नाम हस्सलेतगाना था, और गदेर ४  
 का पिता पनूएल और रूशा का पिता एजेर । ये एपाता  
 के जेठे हूर के सन्तान हैं जो बतलेहेम का पिता हुआ ।  
 और तका के पिता अशहूर के हेवा और नारा नाम दो ५  
 स्त्रियां थीं । और नारा तो उस के जन्माये अहुजाम ६  
 हेपेर तेमनी और हाहशतागी वा जनी नाग के ये ही  
 पुत्र हुए । और हेला के पुत्र सेरेत यिसहर और एबान । ७  
 फिर कास ने आनूब और सोबेवा को जन्माया और ८  
 उस के वंश में हाऊन के पुत्र अहहैल के कुल भी उत्पन्न हुए ।  
 और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और ९  
 उस की माता ने यह कहकर उस का नाम याबेस १  
 रक्खा कि मैं इसे पीड़ित होकर जनी । और याबेस ने १०  
 इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला  
 होता कि तू मुझे सचमुच आशिष देता और मेरा देश

(१) अर्थात् पीड़ा ।

बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे  
 २१ सुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उस से पीड़ित न  
 २२ होता । और जो कुछ उस ने मांगा सो परमेश्वर ने दे  
 २३ दिया । फिर शूहा के भाई कलूव ने एशतोन के पिता  
 २४ महीर को जन्माया । और एशतोन के वंश में राग का  
 २५ घराना और पासेह और ईर्नाहाश का पिता लहिया उत्पन्न  
 २६ हुए रेका के लोग थे ही हैं । और कनज के पुत्र ओजीएल  
 २७ और सरायाह और ओजीएल का पुत्र इतत । मोनेते  
 २८ ने ओमा को और सरायाह ने योआब को जन्माया जो  
 २९ गेहराशीम का पिता हुआ वे तो कारीगर थे । और  
 ३० यपुअ के पुत्र कासैव के पुत्र एला और नाम । और एला  
 ३१ के पुत्र कनज । और यहल्लेल के पुत्र जीप जीप। तीरया  
 ३२ और असरेल । और एत्रा के पुत्र येतेर मेरेद एपर और  
 ३३ यालोन और उस की स्त्री मिर्याम शमी और एशतमे के  
 ३४ पिता विशबह को जनी । और उस की यहूदिन स्त्री गदेर  
 ३५ के पिता येरेद सोका के पिता हेबेर और जानेह के पिता  
 ३६ मकूटीएल को जनी ये फिरौन की बेटी बिया के पुत्र थे  
 ३७ जिसे मेरेद ने ब्याह लिया था । और होदिय्याह की स्त्री  
 ३८ जो नहम की बहिन थी उस के पुत्र कीला का पिता एक  
 ३९ गेरेमी और एशतमे का पिता एक माकाई । और शीमोन के  
 ४० पुत्र अन्नोन रिजा बेन्हानान और तोलोन और यिशी  
 ४१ के पुत्र जोहेत और बेनजोहेत । यहूदा के पुत्र शेला के  
 ४२ पुत्र लेका का पिता एर मारेशा का पिता लादा और  
 ४३ अशबे के घराने के कुल जिस में उन के कपड़े का काम  
 ४४ होता था और योकीम और केजेबा के मनुष्य और  
 ४५ योअश और साराप जो मोआब में प्रभुता करते थे और  
 ४६ याशूब लेहेम इन का वृत्तान्त प्राचीन है । ये कुम्हार थे  
 ४७ और नताईम और गदेग में रहते थे जहाँ वे राजा का  
 ४८ कामकाज करते हुए उस के पास रहते थे ।

(शिमीन की वंशावली)

४९ शिमीन के पुत्र नमूएल यामीन यारीब जेरह और  
 ५० शाऊल । और शाऊल का पुत्र शल्लूम शल्लूम मिबसाम  
 ५१ और मिबसाम का मिश्मा हुआ । और मिश्मा के पुत्र  
 ५२ उस का पुत्र हम्मूएल उस का पुत्र जकूर और उस का  
 ५३ पुत्र शिमी । शिमी के सोलह बेटे और छः बेटी हुईं  
 ५४ पर उस के भाइयों के बहुत बेटे न हुए और उन का  
 ५५ सारा कुल यहूदियों के बराबर न बढ़ा । वे बेशोबा  
 ५६ २९, ३० मेलादा हसर्शआल, बिलहा एसेम तोलाद, बनूएल  
 ५७ ३१ होर्मा सिङ्ग, बेतमकांबात हसर्शसीम बेतबिरी और  
 ५८ शारैम में बस गये दाऊद के राज्य के समय लों उन  
 ५९ के थे ही नगर रहे । और उन के गाँव एताम ऐन रिम्मोन

(५) या निरूपित ।

तोकेन और आशान नाम पाँच नगर, और बाल तक ३३  
 जितने गाँव इन नगरों के आसपास थे उन के बसने के  
 स्थान थे ही वे और उन के वंशावली है । फिर मशोबाब ३४  
 और यम्लेक और अमस्याह का पुत्र योशा, और योएल ३५  
 और योशिन्याह का पुत्र येहू जो सरायाह का पोता और  
 असीएल का परपोता था, और एल्योएन और याकेबा ३६  
 यशोहायाह और असायाह और अदी एल और  
 यसीमीएल और बनायाह, और शिपी का पुत्र जीजा जो ३७  
 अन्नोन का पुत्र यह यदायाह का पुत्र यह शिमी का  
 पुत्र यह शमायाह का पुत्र था, ये जिन के नाम लिखे ३८  
 हुए हैं अपने अपने कुल में प्रधान थे और उन के पितरों  
 के घराने बहुत बढ़ गये । ये अपनी मेड़ बकरियों के लिये ३९  
 चराई हूँढ़ने का गदेर की घाटी की तराई की पूरब ओर  
 तक गये । और उन के उत्तम से उत्तम चराई मिली और ४०  
 देश लम्बा चौड़ा चैन और शांति का था क्योंकि वहाँ के  
 पहिले रहनेहारे हाम के वंश के थे । और जिन के नाम ४१  
 ऊपर लिखे हैं उन्होंने ने यहूदा के राजा हिजकियाह के  
 दिनों में वहाँ आकर जो मूनो वहाँ मिले उन के डेरों समेत  
 मारकर ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज लों उन का पता  
 नहीं है और वे उन के स्थान में रहने लगे क्योंकि वहाँ  
 उन की मेड़ बकरियों के लिये चराई थी । और उन में से ४२  
 अर्थात् शिमोनियों में से पाँच सौ पुरुष अपने ऊपर पलत्याह  
 नार्याह रपायाह और उजीएल नाम यिशी के पुत्रों को अपने  
 प्रधान ठहराकर सेईर पहाड़ को गये, और जो अमलेकी ४३  
 बचकर रह गये थे उन को मारा और आज के दिन लों  
 वहाँ रहते हैं ॥

(रूबेन और गाद की वंशावलियाँ और मनश्ये  
 के आधे गोत्र की वंशावली)

## ५. इस्त्राएल का जेठ तो रूबेन या पर उस ने जो अपने पिता के

बिच्छोने को अशुद्ध किया इस कारण जेठाई का अधिकार  
 इस्त्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया । वंशावली  
 जेठाई के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी । क्योंकि २  
 यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उस  
 के वंश से हुआ पर जेठाई का अधिकार यूसुफ का था ।  
 इस्त्राएल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए अर्थात् हनोक ३  
 पल्लू हेस्त्रोन और कर्मी । और योएल के पुत्र उस का पुत्र ४  
 शमायाह शमायाह का गोग गोग का शिमी, शिमी का ५  
 मीका मीका का रायाह रायाह का बाल, और बाल का ६  
 पुत्र बेरा इस को अशरूर का राजा तिलगतपिलनेसेर  
 वंधुआई में ले गया और वह रूबेनियों का प्रधान था ।  
 और उस के भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे ७

- अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे अर्थात् मुख्य तो  
 ८ यीएल फिर अकर्याह, और अजाज का पुत्र बेला जो  
 शेमा का पीता और योएल का परपोता था वह अरो-  
 ९ एर में और नबो और बाल्मोन लौ रहता था । और  
 पूरब और वह उस जंगल के सिवाने तक रहा जो परात  
 महानद लौ पहुंचता है क्योंकि उन के पशु गिलाद देश  
 १० में बढ़ गये थे । और शाऊल के दिनों में उन्होंने ने हथियों  
 से युद्ध किया और हथी उन के हाथ से मारे गये तब ये  
 गिलाद की सारी पूरबी अलग में उन के डेरों में रहने  
 लगे ॥
- ११ गादी उन के साम्हने सल्का लौ बाशान देश में  
 १२ रहते थे, अर्थात् मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम  
 १३ फिर यानै और शापात ये बाशान में रहते थे । और उन  
 के भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार  
 मीकाएल मशुल्लाम शेबा योरै याकान जी और एबेर  
 १४ सात । ये अर्बाहैल के पुत्र थे जो हूरी का पुत्र था यह  
 योराह का पुत्र यह गिलाद का पुत्र यह मिकाएल का  
 पुत्र यह यशीरी का पुत्र यह वहदो का पुत्र यह बूज का  
 १५ पुत्र था । इन के पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष  
 १६ अब्दीएल का पुत्र और गूनी का पांता अही था । ये  
 लोग बाशान में गिलाद में और उस के गांवों में और  
 शारोन की सब चराइयों में उस की परती और तक  
 १७ रहते थे । इन सभी की वंशावली यहूदा के राजा  
 योताम के दिनों और इस्राएल के राजा यारोबाम  
 के दिनों में लिखी गई ॥
- १८ रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र में  
 के योद्धा जो ढाल बान्धने तलवार चलाने और धनुष  
 से तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करने की सीखे हुए  
 थे सो चौवालीस हजार सात सौ साठ थे जो युद्ध में  
 १९ जाने के योग्य थे । इन्होंने ने हथियों और यत्न नापीश  
 २० और नोदाब से युद्ध किया । उन के विरुद्ध इन के सहा-  
 यता मिली और हथी उन सब समेत जो उन के साथ थे  
 उन के हाथ में कर दिये गये क्योंकि युद्ध में इन्होंने  
 परमेश्वर की दोहाई दी और उस ने उन की बिनती  
 इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा  
 २१ था । और इन्होंने उन के पशु हर लिये अर्थात् अंट तौ  
 पचास हजार भेड़ बकरी अढ़ाई लाख गदहे दो हजार  
 २२ और मनुष्य एक लाख बंधुए करके ले गये । बहुत से  
 मारे तो पड़े क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई ।  
 सो ये उन के स्थान में बन्धुआई के समय लौ बसे रहे ॥
- २३ फिर मनश्शे के आधे गोत्र के सन्तान उस देश में  
 बसे और वे बाशान से ले बाल्हेमोन और सनीर और

हेमोन पर्वत लौ फैल गये । और उन के पितरों के घरानों २४  
 के मुख्य पुरुष ये थे अर्थात् एपेर यिशी एलीएल अग्नी-  
 एल यिर्मयाह होदव्याह और यहदीएल ये बड़े वीर और  
 नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे ॥  
 और उन्होंने ने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वा- २५  
 सघात किया और उस देश के लोग जिन को परमेश्वर  
 ने उन के साम्हने से बिनाश किया था उन के देवताओं  
 के पीछे व्यभिचारिन की नाई हो लिये । सो इस्राएल २६  
 के परमेश्वर ने अश्शूर के राजा पूल का और अश्शूर  
 के राजा तिलगत्पिलनेसेर का मन उभारा और इस ने  
 उन्हें अर्थात् रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे  
 गोत्र के लोगों को बंधुआ करके हलह हाबीर और हारा  
 को और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया और आज  
 के दिन लौ वे वहाँ रहते हैं ॥

(लेवी की वंशावली और लेवियों के वासस्थान)

६. लेवी के पुत्र गेशोम कहात और १  
 मरारी । और कहात के पुत्र २  
 अम्माम यिसहार हेब्रोन और उज्जीएल । और अम्माम ३  
 के सन्तान हारून मूसा और मरियम और हारून  
 के पुत्र नादाब अर्बाहू एलाजार और ईतामार । एला- ४  
 जार ने पीनहास को जन्माया पीनहास ने अबीशू को,  
 अबीशू ने बुकी को बुकां ने उजा को, उजा ने ५, ६  
 जरह्याह को जरह्याह ने मरायोत को, मरायोत ने अम- ७  
 र्याह को अमर्याह ने अहीतब को, अहीतब ने सादोक को ८  
 सादोक ने अहीमास को, अहीमास ने अजर्याह को अज- ९  
 र्याह ने योहानान को, और योहानान ने अजर्याह को १०  
 जन्माया जो सुलैमान के यरूशलेम में बनाये हुए भवन  
 में याजक का काम करता था । फिर अजर्याह ने अमर्याह ११  
 को अमर्याह ने यहीतब को, यहीतब ने सादोक को १२  
 सादोक ने शल्लूम को, शल्लूम ने हिलुकियाह को हिल- १३  
 कियाह ने अजर्याह को, अजर्याह ने सरायाह को और १४  
 सरायाह ने यहोसादाक को जन्माया, और जब यहोवा यहूदा १५  
 और यरूशलेम को नबूकदनेस्सर के द्वारा बंधुआ करके  
 ले गया तब यहोसादाक भी बंधुआ होकर गया ॥

लेवी के पुत्र गेशोम कहात और मरारी । और १६, १७  
 गेशोम के पुत्रों के नाम ये थे अर्थात् लिब्नी और शिमी ।  
 और कहात के पुत्र अम्माम यिसहार हेब्रोन और १८  
 उज्जीएल । और मरारी के पुत्र महली और मूशी और १९  
 अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार लेवीयों के कुल  
 ये हुए अर्थात्, गेशोम का पुत्र लिब्नी हुआ लिब्नी का २०  
 यहत यहत का जिम्मा, जिम्मा का योआह योआह का २१  
 इहो इदी का जेरह और जेरह का पुत्र यातर हुआ ।

२२ फिर कहात का पुत्र अम्मीनादाब हुआ अम्मीनादाब का  
 २३ कोरह कोरह का अस्सीर, अस्सीर का एल्काना एल्काना  
 २४ का एब्द्यासाप एब्द्यासाप का अस्सीर, अस्सीर का तहत  
 तहत का ऊरीएल ऊरीएल का उब्जियाह और उब्जियाह  
 २५ का पुत्र शाऊल हुआ । फिर एल्काना के पुत्र अमासै और  
 २६ अहीमोत । एल्काना का पुत्र सोपै सोपै का नहत,  
 २७ नहत का एलीआब एलीआब का यरोहाम और यरो-  
 २८ हाम का पुत्र एल्काना हुआ । और शमूएल के पुत्र  
 उस का जेठा योएल<sup>१</sup> और दूसरा अब्जियाह हुआ ।  
 २९ फिर मरारी का पुत्र महली महली का लिब्नी लिब्नी  
 ३० का शिमी शिमी का उब्जा, उब्जा का शिमा शिमा का  
 हग्गियाह और हग्गियाह का पुत्र असायाह हुआ ॥  
 ३१ फिर जिन को दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के  
 पीछे यहोवा के भवन में गाने के अधिकारी ठहरा दिया  
 ३२ सो ये हैं । जब लौ सुलैमान यरूशलेम में यहोवा के  
 भवन को बनवा न चुका तब लौ ये मिलापवाले  
 तंबू के निवास के साम्हने गाने के द्वारा सेवा करते थे  
 और इस सेवा में नियम के अनुसार हाजिर हुआ करते  
 ३३ थे । जो अपने अपने पुत्रों समेत हाजिर हुआ करते थे  
 सो ये हैं अर्थात् कहातियों में से हेमान गवैया जो योएल  
 ३४ का पुत्र था और योएल शमूएल का, शमूएल एल्काना  
 का एल्काना यरोहाम का यरोहाम एलीएल का एली-  
 ३५ एल तोह का, तोह सूप का सूप एल्काना का एल्काना  
 ३६ महत का महत अमासै का, अमासै एल्काना का एल्काना  
 योएल का योएल अजर्याह का अजर्याह सपन्याह का,  
 ३७ सपन्याह तहत का तहत अस्सीर का अस्सीर  
 ३८ एब्द्यासाप का एब्द्यासाप कोरह का, कोरह यिसहार  
 का यिसहार कहात का कहात लेवी का और लेवी  
 ३९ इस्राएल का पुत्र था । और उस का भाई आसाब जो  
 उस के दहिने खड़ा हुआ करता था और बेरेन्याह का  
 ४० पुत्र था और बेरेन्याह शिमा का, शिमा मीकाएल का  
 मीकाएल बासेयाह का बासेयाह मल्किन्याह का,  
 ४१ मल्किन्याह एली का एली जेरह का जेरह अदायाह  
 ४२ का, अदायाह एतान का एतान जिम्मा का जिम्मा शिमी  
 ४३ का, शिमी यहत का यहत गेशोम का गेशोम लेवी का पुत्र  
 ४४ था । और बाई और उन के भाई मरारीब खड़े होते थे  
 अर्थात् एतान जो कीशी का पुत्र था और कीशी अब्दी  
 ४५ का अब्दी मल्लूक का, मल्लूक हशब्याह का हशब्याह  
 ४६ अमस्याह का अमस्याह हिलकियाह का, हिलकियाह  
 ४७ अमसी का अमसी बानी का बानी शेमेर का, शेमेर  
 महली का महली मूशी का मूशी मरारी का और मरारी

(१) आरामी में योएल । फिर देखो पद ३३ ।

लेवी का पुत्र था । और इन के भाई जो लेवीय थे सो ४८  
 परमेश्वर के भवन के निवास में की सब प्रकार की सेवा  
 के लिये अर्पण किये हुए थे ॥

परन्तु हारून और उस के पुत्र होमबलि की वेदी ४९  
 और धूप की वेदी दोनों पर चढ़ाते और परमपवित्रस्थान  
 का सब काम करते और इस्राएलियों के लिये प्राथश्चित्त  
 करते थे जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने आशाएँ दी  
 थीं । और हारून के बंश में ये हुए अर्थात् उस का पुत्र ५०  
 एलाजार हुआ और एलाजार का पीनहास पीनहास का  
 अबीशू, अबीशू का बुकी बुकी का उब्जी उब्जी का ५१  
 जह्याह, जह्याह का मरायोत मरायोत का अमर्याह ५२  
 अमर्याह का अहीतूब, अहीतूब का सादोक और सादोक ५३  
 का अहीमास पुत्र हुआ ॥

और उन के भागों में उन की छावनियों के अनु- ५४  
 सार उन की बस्तियाँ ये हैं अर्थात् कहां के कुलों में से  
 पहिली चिट्ठी जो हारून की सन्तान के नाम पर निकली,  
 सो चारों ओर की चराइया समेत यहूदा देश का हेब्रोन ५५  
 उन्हें मिला, पर उस नगर के खेत और गांव यपुन्ने के पुत्र ५६  
 कालेब को दिये गये । और हारून की सन्तान को शरण ५७  
 नगर हेब्रोन और चराइयो समेत लिब्ना और यत्तौर और  
 अपनी अपनी चराइयों समेत एशतमो, हीलेन दबीर, ५८  
 आशान और बैतशेमेश, और बिन्यामीन के गोत्र ५९, ६०  
 में से अपनी अपनी चराइयों समेत गेबा अल्लेमेत और  
 अनातोत दिये गये । उन के सब कुल मिलाकर उन के  
 सब नगर तेरह ठहरे । और शेष कहातियों के गोत्र के ६१  
 कुल अर्थात् मनश्शे के आधे गोत्र में से चिट्ठी डालकर  
 दस नगर दिये गये । और गेशोमियों के कुलों के अनुसार ६२  
 उन्हें इस्राकार आशेर और नत्ताली के गोत्र और  
 बाशान में रहनेहारे मनश्शे के गोत्र में से तेरह नगर  
 मिले । मरारियों के कुलों के अनुसार उन्हें रूबेन गाद ६३  
 और जबूलून के गोत्रों में से चिट्ठी डालकर धारह नगर  
 दिये गये । और इस्राएलियों ने लेवीयों को ये नगर चराइयो ६४  
 समेत दिये । और उन्हें ने यहूदियों शिमोनियों और ६५  
 बिन्यामीनियों के गोत्रों में से वे नगर दिये जिन के नाम  
 ऊपर दिये गये हैं । और कहातियों के कितने एक कुलों ६६  
 को उन के भाग के नगर एप्रैम के गोत्र में से मिले ।  
 सो उन को अपनी अपनी चराइयों समेत एप्रैम के ६७  
 पहाड़ी देश का शकेम जो शरणनगर था फिर गेजेर, योक ६८  
 माम बेथोरोन, अठ्यालोन और गत्रिम्मोन, और ६९, ७०  
 मनश्शे के आधे गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत  
 आनेर और विलाम दिये गये शेष कहातियों के कुल को

(१) मूल में दिये ।

- ७१ वे ही नगर मिले । फिर गैशोमियों को मनश्शे के आधे गोत्र के कुल में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत बाशान  
 ७२ का गोलान और अशतारोत, और इस्साकार के गोत्र में  
 ७३ से अपनी अपनी चराइयों समेत केदेश दाबरत, रामोत  
 ७४ और आनेम, और आशेर के गोत्र में से अपनी अपनी  
 ७५ चराइयों समेत माशाल अब्दोन, हुफोक और रहोव,  
 ७६ और नसाली के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत  
 ७७ गालील का केदेश हम्मोन और किर्यातेम मिले । फिर  
 शेष लिवीयों अर्थात् मरारीयो को जब्बूलन के गोत्र में से तो  
 ७८ अपनी अपनी चराइयों समेत रिम्मोन और ताबोर, और  
 यरीहो के पास की यर्दन नदी की पूरब और रुबेन के  
 गोत्र में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत जंगल में का  
 ७९ ८० बेसेर यहसा, कदेमोत और मेपात, और गाद के गोत्र  
 में से अपना अपनी चराइयों समेत गिलाद का रामोत  
 ८१ महनैम, हेशोबोन और याजेर दिये गये ॥

(इस्साकार बिन्यामीन नसाली मनश्शे एप्रैम  
 और आशेर की वंशावलियां)

## ७. इस्साकार के पुत्र तोला पूषा याशूव और शिमोन चार । और

- तोला के पुत्र उजी रपायाह यरीएल यहमै यिवसाम और  
 शमूएल ये अपने अपने पितरों के घरानों अर्थात् तोला  
 की सन्तान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे और दाऊद  
 के दिनों में उन के वंश की गिनती बाईस हजार छः सौ  
 ३ थी । और उजी का पुत्र यिज्रह्याह और यिज्रह्याह के  
 पुत्र मीकाएल आंबद्याह योएल और यिश्शय्याह  
 ४ पांच । ये सब मुख्य पुरुष थे । और उन के साथ उन की  
 वंशावलियां और पितरों के घरानों के अनुसार सेना के  
 दलों के कृत्तिस हजार योद्धा थे क्योंकि उन के बहुत  
 ५ स्त्रियां और बेटे हुए । और उन के भाई जो इस्साकार  
 के सब कुलों में से थे सो सत्त सौ हजार बड़े वीर थे जो  
 अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गये ॥  
 ६ बिन्यामीन के पुत्र बेला बेकेर और यदीएल तीन ।  
 ७ बेला के पुत्र एसबोन उजी उजीएल यरीमोत और इरी  
 पांच । ये अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और  
 बड़े वीर थे और अपनी अपनी वंशावली के अनुसार उन  
 ८ की गिनती बाईस हजार चौत्तीस हुई । और बेकेर के पुत्र  
 जमीरा योआश एलीएजेर एल्योएनै ओझी यरेमोत  
 अविद्याह अनातोत और आलेमेत ये सब बेकेर के पुत्र  
 ९ हुए । ये जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष  
 और बड़े वीर थे इन के वंश की गिनती अपनी अपनी  
 १० वंशावली के अनुसार बीस हजार दो सौ ठहरी । और  
 यदीएल का पुत्र बिल्हा और बिल्हान के पुत्र यूश

बिन्यामीन एहूद कनाना जेतान तर्शाश और अहीशहर । ये ११  
 सब जो यदीएल के सन्तान और अपने अपने पितरों के घरानों  
 में मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे इन के वंश सेना में युद्ध  
 करने के योग्य सत्रह हजार दो सौ पुरुष थे । और ईर के १२  
 पुत्र शुप्पीम और हुप्पीम और अहेर के पुत्र हूशी थे ॥

नसाली के पुत्र एहसीएल गूनी येसेर और शम्सूम १३  
 ये बिल्हा के पोते थे ॥

मनश्शे के पुत्र असीएल जिस को उस की अरामी १४  
 रखेली जनी और अरामी गिलाद के पिता माकीर की भी  
 जनी । और माकीर जिस की बहिन का नाम माका था १५  
 उस ने हुप्पीम और शुप्पीम के लिये स्त्रियां ब्याह लीं  
 और दूसरे का नाम सलोफाद था और सलोफाद के  
 बेटियां हुईं । फिर माकीर की स्त्री माका एक बेटा जनी १६  
 और उस का नाम परेश रक्खा और उस के भाई का  
 नाम शेरेश था और इस के पुत्र ऊलाम और राकेम हुए ।  
 और ऊलाम का पुत्र बदान । ये गिलाद के सन्तान हुए १७  
 जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था । फिर १८  
 उस की बहिन हम्मोलेकेत ईशहाद अवीएजेर और महला  
 को जनी । और शमीदा के पुत्र अह्यान शेवेम लिखी १९  
 और अनीशाम हुए ॥

और एप्रैम के पुत्र शूतेलह और शूतेलह का बेरेद २०  
 बेरेद का तहत तहत का एलादा एलादा का तहत, तहत २१  
 का जाबाः और जाबाद का पुत्र शूतेलह हुआ और  
 येजेर और एलाद भी जिन्हें गत के मनुष्यों ने जो उस  
 देश में उत्पन्न हुए थे इसलिये पात किया कि वे उन के  
 पशु हर लेने को आये थे । सो उन का पिता एप्रैम उन २२  
 के लिये बहुत दिन शोक करता रहा और उस के भाई  
 उसे शांति देने को आये । तब उस ने अपनी स्त्री से २३  
 प्रसंग किया और वह गर्भवती होकर एक बेटा जनी और  
 एप्रैम ने उस का नाम इस कारण बरीआ रक्खा कि उस  
 के घराने में विपत्ति पड़ी थी । और उस की बेटा शैरा थी २४  
 जिस ने निचले और उपरले दोनों बेथोरान नाम नगरों  
 और उज्जेनशेरा को इह करायन और उस का बेटा रेपा २५  
 था और रेशेप भी और उस का पुत्र तेलह तेलह का  
 तहन, तहन का लादान लादान का अम्मीहूद अम्मीहूद २६  
 का एलीशामा, एलीशामा का नून और नून का पुत्र २७  
 यहोश हुआ । और उन की निज भूमि और बस्तियां गांवों २८  
 समेत बेतेल और पूरव और नारान और पच्छिम और  
 गांवों समेत गैजेर फिर गांवों समेत शकेम और गांवों  
 समेत अजा थीं, और मनश्शेइयों के सिवाने के पास अपने २९



अपने गाँवों समेत बेतशान तानाक मगिहं और दोर ।  
इन में इस्त्राएल के पुत्र यूसुफ के सन्तान रहते थे ॥

- ३० आशेर के पुत्र यिस्ना यिश्बा यिश्वी और बरीआ
- ३१ और उन की बहिन सेरह हुई । और बरीआ के पुत्र हेबेर
- ३२ और मल्कीएल और यह बिजोंत का पिता हुआ । और हेबेर ने यफलेत शोमेर होताम और उन की बहिन शूआ को जन्माया । और यफलेत के पुत्र पासक बिन्दाख और
- ३४ अश्रात यफलेत के ये ही पुत्र हुए । और शोमेर के पुत्र
- ३५ अही रोहगा यहुब्बा और अराम । और उस के भाई हेलेम के पुत्र सोपह यिस्ना शोलेष और आमाल । और सोपह के
- ३७ पुत्र सूह हनेपेर शूआल केरी यिस्ना, बेसेर होद शम्मा
- ३८ शिलसा यिजान और बेरा । और येतेर के पुत्र यपुजे
- ३९ पिस्वा और अरा । और उल्ला के पुत्र आरह हन्नीएल
- ४० और रिस्वा । ये सब आशेर के वंश में हुए और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े से बड़े वीर और प्रधानों में मुख्य थे और ये जं अपनी अपनी वंशावली के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिये गिने गये इन की गिनती छब्बीस हजार उहरी ॥

(बिन्यामीन की वंशावली)

८. बिन्यामीन ने अपने जेठे बेटा का

- दूसरे अशबेल तीसरे अहह,
- २,३ चौथे नोहा और पांचवें रापा का जन्माया । और बेला के
- ४,५ पुत्र अहार गेरा अहीहूद, अवीश नामान अहांह, गेरा
- ६ शपूपान और हूराम हुए । और एहूद के पुत्र ये हुए
- गेवा के निवासियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष ये
- ७ थे जो बन्धुप करके मानहत्त की पहुँचाये गये । और नामान अहिय्याह और गेरा हुए यही उन्हें बन्धुआ करके मानहत्त का ले गया और उस ने उजा और अहीलूद को
- ८ जन्माया । और शहरैम ने हूशीम और बारा नाम अपनी स्त्रियों को छोड़ देने के पीछे मोआब देश में लड़के
- ९ जन्माये । सो उस ने अपनी स्त्री होदेश से योआब सिन्वा
- १० मेशा मल्काम, यूस सोक्या और मर्मा का जन्माया उस के ये पुत्र अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष
- ११ थे । और हूशीम से उस ने अवीतब और एल्गल को
- १२ जन्माया । एल्पाल के पुत्र एबेर मिशाम और शोमेर
- १३ इसी ने खोना और गाँवों समेत लोद का बसाया, फिर बरीआ और शेमा जो अम्यालोन के निवासियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे और गत के निवासियों का भगा
- १४, १५ दिया, और अह्यो शासक यरेमोत, जबद्याह अराद एदेर,
- १६, १७ मीकाएल रिस्वा योहा आँ बरीआ के पुत्र थे, जबद्याह

मशुल्लाम हिजकी हेबेर, विशमरी यिजलीआ योकाथ जो १८ एल्पाल के पुत्र थे, और याकीम जिक्की जब्दाँ, एलीएनै १९, २० सिल्लते एलीएल, अदायाह बरायाह और शिम्नात जो २१ शिमी के पुत्र थे, और यिशपान यबेर एलीएल, अब्दीन २२, २३ जिक्की हानान, हनन्याह एलाम अन्तोतिय्याह, यिपदयाह २४, २५ और पनुएल जो शाशक के पुत्र थे, और शमशरी शहयाह २६ अतल्याह, थारेय्याह एलिय्याह और जिक्की जो यरंहाम २७ के पुत्र थे । ये अपनी अपनी पीढ़ी में अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और प्रधान थे ये यरुशलेम में रहते थे । और गिबोन में गिबोन का पिता रहना था २९ जिस की स्त्री का नाम माका था, और उस का जेठा ३० बेटा अब्दीन हुआ फिर शूर कीश बाल नादाब, गदीर ३१ अयो जेकेर । और मिन्नोत ने शिमा का जन्माया ३२ और ये भी अपने भाइयों के साथ अपने भाइयों के संग यरुशलेम में रहते थे । और नेर ने कीश को जन्माया ३३ कीश ने शाऊल को और शाऊल ने योनातान मलकीश अवीनादाब और एशबाल का जन्माया । और योनातान ३४ का पुत्र मरीब्बाल हुआ और मरीब्बाल ने मीका का जन्माया । और मीका के पुत्र पीतेन मेलोक तारे और ३५ आहाज । और आहाज ने यहोअहा का जन्माया और ३६ यहोअहा ने आलेमेत अजमावेत और जिम्नी को और जिम्नी ने मोसा को, और मोसा ने बिना को जन्माया और ३७ इस का पुत्र रापा हुआ रापा का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल हुआ । और आसेल के छः पुत्र हुए ३८ जिन के ये नाम थे अर्थात् अज्रीकाम बोकरू यिस्माएल शार्याह आंबाह और हानान ये ही सब आसेल के पुत्र हुए । और उस के भाई एशोक के ये पुत्र हुए अर्थात् ३९ उस का जेठा उलाम दूसरा यूश तीसरा एलीपलेत । और उलाम के पुत्र शूरबीर और धनुर्धारी हुए और उन के बहुत बेटे पीते अर्थात् डेढ़ सौ हुए ये ही सब बिन्यामीन के वंश के थे ॥

(यरुशलेम में रहनेहारों का प्रबन्ध)

९. यों सब इस्त्राएली अपनी अपनी वंशा-

वली के अनुसार जो इस्त्राएल के राजाओं के इत्तान्त की पुस्तक में लिखी हैं गिने गये और यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बन्धुप करके बाबेल का पहुँचाये गये । जो लोग अपनी अपनी निज भूमि अर्थात् अपने नगरों में रहते थे सो इस्त्राएली, याजक लेवीय और नतीन थे । और यरुशलेम में कुछ यहूदी कुछ बिन्यामीनी और कुछ एप्रैमी और मनशोई रहते थे, अर्थात् यहूदा के पुत्र परेस के वंश में से

अम्मीहूद का पुत्र ऊतै जो धोम्री का पुत्र और इम्री का पुत्र और बानी का परपोता था, और शीलोइयों में से उस का जेठा बेटा असायाह और उस के पुत्र, और जेरह के वंश में से मूएल और इन के भाई ये छः सौ नम्बे हुए । फिर त्रिन्यामीन के वंश में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र होदब्याह का पोता और हस्सनुआ का परपोता था, और त्रिन्याह जो यरोहाम का पुत्र था और एला जो उज्जा का पुत्र और मिक्री का पोता था और मशुल्लाम जो शपत्याह का पुत्र रूपल का पोता और ९ त्रिन्याह का परपोता था, और इन के भाई जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर नौ सौ छपन ठहरे थे सब पुरुष अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार पितरों के घरानों में मुख्य थे ॥

१० फिर याजकों में से यदायाह यहोयारीव और ११ याकीन, और अजर्याह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिलकियाह का पुत्र था यह मशुल्लाम का पुत्र यह सादोक का पुत्र यह मरायोत का पुत्र यह अहीतब का पुत्र था, और अदायाह जो यरोहाम का पुत्र था यह पशहूर का पुत्र यह मल्कियाह का पुत्र यह मासै का पुत्र यह अदीएल का पुत्र यह जेरा का पुत्र यह मशुल्लाम का पुत्र यह मशिल्लित का पुत्र यह इम्मेर का पुत्र था । १३ और इन के भाई ये जो अपने अपने पितरों के घरानों में सत्रह सौ साठ मुख्य पुरुष थे वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे । फिर लेवीयों में से मरारी के वंश में से शमायाह जो हश्शव का पुत्र १५ अज्जोकाम का पोता और हशव्याह का परपोता था, और बकबकर हेरेश और गालाल और आसाप के वंश में से मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जिक्की का पोता था, १६ और अब्बाह जो शमायाह का पुत्र गालाल का पोता और यदूतन का परपोता था और बेरेन्याह जो आसा का पुत्र और एल्काना का पोता था जो नतोपाइयों के १७ गांवों में रहता था । और डेवडीदारों में से अपने अपने भाइयों सहित शल्लूम अस्कूत्र तल्मोन और अहीमान १८ इन में से मुख्य तो शल्लूम था, और वह तब सौ पूरब और राजा के फाटक के पास डेवडीदारी करता था । लेवीयों की १९ छावनी के डेवडीदार ये ही थे । और शल्लूम जो केर के पुत्र एब्यासाप का पोता और कोरह का परपोता था और उस के भाई जो उस के मूलपुरुष के घराने के अर्थात् कोरही थे सो इस काम के अधिकारी थे कि वे तम्बू के डेवडीदार हों । उन के पुरखा तो यहोवा की २० छावनी के अधिकारी और पैठाव के रखवाल थे । और अगले समय में एलाजार का पुत्र पीनहास जिस के संग

यहोवा रहा सो उन का प्रधान था । मेशेलेम्याह का पुत्र २१ जकर्याह मिलापवाले तम्बू का डेवडीदार था । ये सब जो २२ डेवडीदार होने को चुने गये सो दो सौ बारह थे ये जिन के पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वासयोग्य जानकर ठहराया था सो अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गये । सो वे और उन २३ के सन्तान यहोवा के भवन अर्थात् तम्बू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे । डेवडीदार २४ पूरब पच्छिम उत्तर दक्खिन चारों दिशा की और चौकी देते थे । और उन के भाई जो गांवों में रहते थे उन को २५ सात सात दिन पीछे बारी बारी करके उन के संग रहने के लिये आना पड़ता था । क्योंकि चारों प्रधान डेवडीदार २६ जो लेवीय थे सो विश्वासयोग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और मण्डारों के अधिकारी ठहराये गये थे । और वे परमेश्वर के भवन के आस पास इसलिये २७ रात बिताते थे कि उस की रक्षा उन्हें सौंरी गई थी और भोर भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था । और उन में २८ से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे क्योंकि ये गिनकर भीतर पहुँचाये और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे । और उन में से कुछ सामान के और पवित्र २९ स्थान के पात्रों के और मैदे दाखमधु तेल लौभान और सुगंधद्रव्यों के अधिकारी ठहराये गये । और याजकों के ३० बेटों में से कुछ सुगन्धद्रव्यों में गंधी का काम करते थे । और मत्तन्याह नाम एक लेवीय जो कोरही शल्लूम का ३१ जेठा था सो विश्वासयोग्य जानकर तबों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी था । और उस के भाइयों अर्थात् ३२ कहलियों में से कुछ तो भेंटवाली रोटी के अधिकारी थे कि एक एक विश्वासदिन को उसे तैयार किया करें । और ३३ ये गाँवये थे जो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य थे और कोठरियों में रहते और भोर काम से छूटे थे क्योंकि वे दिन रात अपने काम में लगे रहते थे । ये ही अपनी अपनी ३४ पीढ़ी में लेवीयों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे ये यरुशलैम में रहते थे ॥

और गिबोन में गिबोन का पिता यीएल रहता था ३५ जिस की स्त्री का नाम माका था । उस का जेठा बेटा ३६ अब्दोन हुआ फिर सूर कीश बाल नेर नादाब, गदोर ३७ अब्दो जकर्याह और मिक्कोत । और मिक्कोत ने शिमाम ३८ को जन्माया और ये भी अपने भाइयों के साम्हने अपने भाइयों के संग यरुशलैम में रहते थे । और नेर ने कीश ३९ को जन्माया कीश ने शाऊल को और शाऊल ने योनातान मल्कीशू अबीनादाब और एशबाल को जन्माया । और योनातान का पुत्र मरीन्बाल हुआ और मरीन्बाल ने ४०

- ४१ मीका को जन्माया । और मीका के पुत्र पीतोन मेलोक  
 ४२ और तहो<sup>१</sup> । और आहाज ने यारा को जन्माया और यारा  
 ने आलेमेत अजमावेत और जिन्नी को जन्माया और जिन्नी  
 ४३ ने मोसा को, और मोसा ने बिना को जन्माया और इस  
 का पुत्र रपायाह हुआ रपायाह का एलासा और एलासा  
 ४४ का पुत्र आसेल हुआ, और आसेल के छः पुत्र हुए जिन  
 के ये नाम थे अर्थात् अजीकाम बोकरू यिश्माएल शार्याह  
 अबद्याह और हानान आसेल के ये ही पुत्र हुए ॥

(शाऊल को मृत्यु और दाऊद के राज्य का आरम्भ)

### १०. पलिशती तो इस्राएलियों से लड़े और

- इस्राएली पलिशतियों के  
 सा-हने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गये ।  
 २ और पलिशती शाऊल और उस के पुत्रों के पीछे लगे रहे  
 और पलिशतियों ने शाऊल के पुत्र योनातान अबीनादाब  
 ३ और मल्कीशू को मार डाला । और शाऊल के साथ  
 लड़ाई और भारी होती गई और धनुर्धारियों ने उसे जा  
 ४ लिया और वह उन के कारण व्याकुल हो गया । तब  
 शाऊल ने अपने हथियार दोनेहारे से कहा अपनी तलवार  
 खींचकर मेरे भोंक दे ऐसा न हो कि वे खतनारहित लोग  
 आकर मेरा ठट्टा करें पर उस के हथियार दोनेहारे ने  
 अत्यन्त भय खाकर ऐसा करना नकारा तब शाऊल अपनी  
 ५ तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा । यह देखकर कि  
 शाऊल मर गया उस का हथियार दोनेहारा भी अपनी  
 ६ तलवार पर आप गिरकर मर गया । यों शाऊल और  
 उस के तीनों पुत्र और उस के सारे घराने के लोग एक  
 ७ मंग मर गये । यह देखकर कि वे भाग गये और शाऊल  
 और उस के पुत्र मर गये उस तराई में रहनेहारे सब  
 इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग  
 गये और पलिशती आकर उनमें रहने लगे ॥  
 ८ दूसरे दिन जब पलिशती मारे हुआओं के माल को  
 लूटने आये तब उन को शाऊल और उस के पुत्र गिलबो  
 ९ पहाड़ पर पड़े हुए मिले । सो उन्होंने ने उस के बच्चों को  
 उतार उस का सिर और हथियार ले लिये और पलिशतियों  
 के देश के सब स्थानों में वृत्तों को इसलिये भेज दिया कि  
 उन के देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समा-  
 १० चार देते जाएं । तब उन्होंने ने उस के हथियार तो अपने  
 देवालय में रक्खे और उस की खोपड़ी दागोन के मन्दिर  
 ११ में जड़ दी । जब गिलाद के यावेश के सारे लोगों ने  
 सुना कि पलिशतियों ने शाऊल से क्या क्या किया है,  
 १२ तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उस के पुत्रों की

(१) देखो ८ : २५ ।

लौथें उठाकर यावेश में ले आये और उन की हथियों को  
 यावेश में के बांज वृक्ष के तले गाड़ दिया और सात दिन  
 का उपवास किया । सो शाऊल उस विश्वासघात के १३  
 कारण मर गया जो उस ने यहोवा से किया था क्योंकि  
 उस ने यहोवा का वचन टाला था फिर उस ने भूतसिद्धि  
 करनेवाली से पूछकर सम्मति ली थी, उस ने यहोवा से १४  
 न पूछा था सो यहोवा ने उसे मारकर राज्य यिश्बै के  
 पुत्र दाऊद का कर दिया ॥

### ११. तब सब इस्राएली दाऊद के पास हेब्रोन

में इकट्ठे होकर कहने लगे सुन हम  
 लोग और तू एक ही हाड़ मांस है । अगले दिनों में २  
 जब शाऊल राजा था तब भी इस्राएलियों का अगुआ  
 तू ही था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझ से कहा कि  
 मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और मेरी प्रजा इस्राएल  
 का प्रधान तू ही होगा । सो सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन ३  
 में राजा के पास आये और दाऊद ने उन के साथ हेब्रोन  
 में यहोवा के साम्हने वाचा बाधा और उन्होंने ने यहोवा  
 के वचन के अनुसार जो उस ने शमूएल से कहा था  
 इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद का अभिषेक  
 किया । तब सब इस्राएलियों समेत दाऊद यरूशलेम को ४  
 गया जो यबूस भी कहलाता था और यबूसी नाम उस  
 देश के निवासी वहां रहते थे । सो यबूस के निवासियों ५  
 ने दाऊद से कहा तू यहां आने न पाएगा । तौभी दाऊद  
 ने सियोन नाम गढ़ को ले लिया वही दाऊदपुर भी  
 कहावता है । और दाऊद ने कहा जो कोई यबूसियों ६  
 को सब से पहिले मारेगा सो मुख्य सेनापति होगा तब  
 सरूयाह का पुत्र योआब सब से पहिले चढ़ गया और  
 मुख्य ठहर गया । और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा ७  
 सो उस का नाम दाऊदपुर पड़ा । और उस ने नगर ८  
 के चारों ओर अर्थात् मिल्लो से लेकर चारों ओर शहरपनाह  
 बनवाई और योआब ने शेष नगर के खण्डहर को फिर  
 बसाया<sup>२</sup> । और दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई और ९  
 सेनाओं का यहोवा उस के संग था ॥

(दाऊद के शूरवीर)

यहोवा ने इस्राएल के विषय जो वचन कहा था १०  
 उस के अनुसार दाऊद के जिन शूरवीरों ने सारे इस्रा-  
 एलियों समेत उस के राज्य में उस के पक्ष में होकर उसे  
 राजा बनाने को बल किया उन में से मुख्य पुरुष ये हैं ।  
 दाऊद के शूरवीरों की नामावली<sup>३</sup> यह है अर्थात् किसी ११  
 इकमौनी का पुत्र याशोबाम जो तीसों में मुख्य था उस

(२) मूल में बाकी नगर जिलाता था । (३) मूल में बिनती ।

ने तीन सौ पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय  
 १२ मार डाला । उस के पीछे दोबो का पुत्र एक अहोही  
 एलाजार नाम था जो तीनों बड़े बीरों में से एक था ।  
 १३ वह पसदम्मीभ में जहां अब का एक खेत था दाऊद के  
 संग रहा और पलिश्र्ती वहां युद्ध करने को इकट्ठे हुए थे  
 १४ और लोग पलिश्र्तियों के साम्हने से भाग गये थे । तब  
 उन्हें ने उस खेत के बीच खड़े होकर उस की रक्षा की  
 और पलिश्र्तियों को मारा और यद्दोवा ने उन का बड़ा  
 १५ उदार किया । और तीसो मुख्य पुरुषों में से तीन दाऊद  
 के पास चटान को अर्थात् अदुल्लाम नाम गुफा में गये  
 और पलिश्र्तियों की छावनी रपाईम नाम तराई में पड़ी  
 १६ हुई थी । उस समय दाऊद गढ़ में था और उसी समय  
 १७ पलिश्र्तियों की एक चौकी बेतलेहेम में थी । तब दाऊद  
 ने बड़ी अभिलाष के साथ कहा कौन मुझे बेतलेहेम के  
 १८ फाटक के पास के कुएं का पाना पिलाएगा । सो वे  
 तीनों जन पलिश्र्तियों की छावनी में टूट पड़े और बेतले-  
 हेम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले  
 आये पर दाऊद ने पीने से नाह की और यद्दोवा के  
 १९ साम्हने अर्ध करके उण्डेला । और उस ने कहा मेरा  
 परमेश्वर मुझ से ऐसा करना दूर रखे क्या मैं इन  
 मनुष्यों का लोह पीऊं जो अपने प्राण पर खेलते हैं ये  
 तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आये हैं सो उस ने  
 वह पाना पीने से नाह की इन तीन बीरों ने तो ये ही  
 २० काम किये । अब अग्नीशै जो योआब का भाई या सो  
 तीनों में मुख्य था और उस ने अपना भाला चलाकर  
 तीन सौ को मार डाल और तीनों में नामी हो गया ।  
 २१ दूसरो श्रेणी के तीनों में से वह अधिक प्रतिष्ठित था  
 और उन का प्रधान हो गया पर मुख्य तीनों के पद को न  
 २२ पहुँचा । यद्दोवादा का पुत्र बनायाह था जो कभजेल के  
 एक बीर का पुत्र था जिस ने बड़े बड़े काम किये थे  
 उस ने सिद्ध सरीखे दो मोआबियों को मार डाल और  
 बरक के समय उस ने एक गड़हे में उतर के एक सिंह को  
 २३ मार डाला । फिर उस ने एक डीलवाले अर्थात् पाँच  
 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला मिस्री तो हाथ में  
 बुलाहों का डेका सा एक भाला लिये हुए था पर बनायाह  
 एक लाठी ही लिये हुए उस के पास गया और मिस्री के  
 हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात  
 २४ किया । ऐसे ऐसे काम करके यद्दोवादा का पुत्र बनायाह  
 २५ उन तीनों बीरों में नामी हो गया । वह तो तीनों से  
 अधिक प्रतिष्ठित था पर मुख्य तीनों के पद को न पहुँचा ।  
 उस को दाऊद ने अग्नी निज सभा में सम्मान दिया ॥  
 २६ फिर दलो के बीर ये थे अर्थात् योआब का भाई

असाहेल बेतलेहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान, इरोरी २७  
 शम्मोत पलोनी हेलेम, तकोई इन्केथ का पुत्र ईश अना- २८  
 तोती अग्नीएजेर, हूशाई सिब्बके अहोही ईली, नतोपाई २९, ३०  
 महरै एक और नतोपाई, बाना का पुत्र हेलेद, बिन्धा- ३१  
 मीनियो के निवा नगरवासी रीबे का पुत्र इले पिरतोनी  
 बनायाह, गाश के नालों के पास रहनेहारा हुरै अराबा- ३२  
 वासी अग्नीएल, बहूमी अजमावेत शाल्बोनी एल्बहबा, ३३  
 गीजोई हाशेम के पुत्र फिर पहाड़ी शागे का पुत्र ३४  
 योनातान, पहाड़ी सराकार का पुत्र अहीआम ऊर का पुत्र ३५  
 एलीपाल, मकेराई हेपेर पलोनी अहिय्याह, कम ती हेसो ३६, ३७  
 एज्बै का पुत्र नारै, नातान का भाई योएल हग्नी का पुत्र ३८  
 मिभार, अम्मोनी सेलेक बेरोती नहरै जो सरुयाह के पुत्र ३९  
 योआब का हथियार ठोनेहारा था, येतेरी ईर। और गारेब, ४०  
 हित्तं ऊरिय्याह अहलै का पुत्र जावाद, तीस ४१, ४२  
 पुरुषो समेत रुबेनी शीजा का पुत्र अदीना जो रुबेनियों  
 का मुखिया था, माका का पुत्र हानान मेतेनी ४३  
 योशापात, अशतारोती उजिय्याह अरोएरी हाताम ४४  
 के पुत्र शामा और यीएल, शिम्नी का पुत्र यदीएल ४५  
 और उस का तीसी भाई योहा, महवीमी एलीएल ४६  
 एलनाम के पुत्र यरीबै और योशय्याह मोआबी थिम्मा,  
 एलीएल ओबेद और मसोबाई यासीएल ॥ ४७

(दाऊद के अनुचर)

## १२. जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र

शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था तब ये उस के पास वहां आये और ये उन बीरों में के  
 थे जो युद्ध में उस के सहायक थे । ये धनुर्धारी थे जो दहिने २  
 बायें दोनों हाथों से गोफन के पथर और धनुष के तीर  
 चला सकते थे और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्ध्यामीनी  
 थे । मुख्य तो अग्नीएजेर और दूसरा योआज था ये निवा ३  
 वासी शमाआ के पुत्र थे फिर अजमावेत के पुत्र यजीएल  
 और ग्लेत फिर बराका और अनातोती थेहू, और गिबोनी ४  
 यिशमायाह जो तीनों में से एक बीर और उन के ऊपर  
 भी था फिर थिर्मयाह यहजीएल योहानान गदेरावासी  
 योजावाद, एल्जै यरीमोत बाल्याह शमर्याह हारुरी ५  
 शरय्याह, एल्काना यिशिय्याह अत्रेल योएजेर याशो- ६  
 बाम जो सब केरहवंशी थे, और गदोरवासी यरोहाम के ७  
 पुत्र योएला और जबय्याह । फिर जब दाऊद जंगल के ८  
 गढ़ में रहता था तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध करने  
 को सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लानेहारे  
 थे और उन के मुंह सिंह के से और वे पहाड़ी चिकारे

(१) मूल में बन्द ।

१० वेग दौड़नेहारे थे थे और गादियों से अलग होकर उस के पास आये, अर्थात् मुख्य तो एजेर दूसरा ओबद्याह तीसरा १०, ११ एलीआब, चौथा मिश्मजा पांचवां यिर्मयाह, छठा १२ असे सातवां एलीएल, आठवां योहानान नौवां एलजा- १३ बाद, दसवां यिर्मयाह और ग्यारहवां मकयसे था । १४ ये गादी मुख्य योद्धा थे उन में से जो सब से छोटा था सो तो एक सौ के बराबर और जो सब से बड़ा था सो १५ हजार के बराबर था । ये ही थे हैं जो पहिले महीने में जब यर्दन नदी सब कड़ाड़े के ऊपर ऊपर बहती थी तब उस के पार उतरे और पूरब और पच्छिम ओनों और के १६ सब तराई के रहनेहारे को भगा दिया । और कई एक बिन्यामीनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में १७ आये । उन से मिलने को दाऊद निकला और उन से कहा यदि तुम मेरे पास मित्रभाव से मेरी सहायता करने को आये हो तब तो मेरा मन तुम से लगा रहेगा पर जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकवाने आये हो तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके १८ डांटे क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ । तब आत्मा अमासे में समाया जो तीसों पीतों में मुख्य था और उस ने कहा हे दाऊद हम तेरे हैं हे यिरी के पुत्र हम तेरी ओर के हैं तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है सो दाऊद ने उन को रख लिया और १९ अपने दल के मुखिये ठहरा दिया । फिर कुछ मनश्शेई भी उस समय दाऊद के पास भाग गये जब वह पलिश्तियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया पर उन की कुछ सहायता न की क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह यहकर उसे बिदा किया कि वह हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा । २० जब वह सिक्किम को जा रहा था तब ये मनश्शेई उस के पास भाग गये अर्थात् अदना योजाबाद यदीएल मीकाएल योजाबाद एलीहू और सिल्लतै जो मनश्शे के हजारों के २१ मुखिये थे । इन्होंने लुटेरों के दल के बिरुद्ध दाऊद की सहायता की क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान २२ भी बन गये । बरन दिन दिन लोग दाऊद की सहायता करने को उस के पास आते रहे यहाँ लों कि परमेश्वर की सी एक बड़ी सेना बन गई ॥ २३ फिर जो लड़ने को हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिये आये कि यहोबा के वचन के अनुमार शाऊल का राज्य उस के हाथ कर दें उन के २४ मुखियों की यह गिनती है । यहूदी तो ढाल और भाला लिये हुए लड़ने को हथियारभन्द छः हजार आठ सौ

आये । शिमोनी लड़ने को तैयार सात हजार एक सौ शूरवीर २५ आये । लेवीय चार हजार छः सौ आये । और हाऊन २६, २७ के घराने का प्रधान यहोयादा था और उस के साथ तीन हजार सात सौ आये । और सादोक नाम एक जवान वीर २८ भी आया और उस के पिता के घराने के भाईस प्रधान आये । और शाऊल के भाई बिन्यामीनियों में से तीन हजार ही २९ आये क्योंकि उस समय लों आये बिन्यामीनियों से अधिक शाऊल के घराने का पंक्त करते रहे । फिर एप्रैमियों में ३० से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घरानों में नामी पुरुष बीस हजार आठ सौ आये और मनश्शे के आठ ३१ गोत्र में से दाऊद को राजा करने के लिये अठारह हजार आये जिन के नाम बताये गये थे । और इस्राएलियों में ३२ से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है उन के प्रधान दो सौ थे और उन के सब भाई उन की आज्ञा में रहते थे । फिर जबूलून में से युद्ध के ३३ सब प्रकार के हथियार लिये हुए लड़ने को पांति बांधने- हारे योद्धा पचास हजार आये ये पांति बांधनेहारे थे और चंचल न थे । फिर नसाली में से प्रधान तो एक हजार ३४ और उन के संग ढाल और भाला लिये सैंतीस हजार आये । और दानियों में से लड़ने के लिये पांति बांधनेहारे ३५ अठारह हजार छः सौ आये । और आशेर में से लड़ने के लिये पांति बांधनेहारे चालीस हजार योद्धा आये । और ३६ यर्दन पार रहनेहारे रबेनी गादी और मनश्शे के आठ गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिये हुए एक लाख बीस हजार आये । ये सब युद्ध के लिये पांति ३८ बांधनेहारे योद्धा दाऊद को सारे इस्राएल का राजा करने के लिये हेब्रोन में सब्धे मन से आये और और सब इस्राएली भी दाऊद को राजा करने के लिये एक मन हुए थे । और वे वहाँ तीन दिन दाऊद के संग ३९ खाते पीते रहे क्योंकि उन के भाइयों ने उन के लिये तैयारी की थी । और जो उन के निकट बरन इस्राकार ४० जबूलून और नसाली लों रहते थे वे भी गदहों ऊंटों खरों और बैलों पर मैदा अंजीरों और किशमिश की टिकियां दाखमधु और तेल आदि भोजनवस्तु लादक लाये और नैल और मेड़ बकरियां बहुतायत से लाये क्योंकि इस्राएल में आनन्द हो रहा था ॥

(पवित्र संदूक के यरूशलेम में पहुँचाये जाने का वर्णन)

१३. और दाऊद ने सहस्रपतियों शतपतियों और सब प्रधानों से सम्मति ली । तब दाऊद ने इस्राएल की सारी मण्डली २

(१) मूल में, मन और मन के बिना ।

से कहा यदि यह तुम को अच्छा लगे और हमारे पर-  
मेश्वर की इच्छा हो तो इस्राएल के सब देशों में  
हमारे जो भाई रह गये और उन के साथ जो याजक  
और लेवीय अपने अपने चगाईवाले नगर्गों में रहते हैं  
उन के पास भी यह हर कहीं कहला मेजें कि हमारे  
१ पास इकट्ठे हो जाओ। और हम अपने परमेश्वर के  
संदूक को अपने यहां ले आएँ क्योंकि शाऊल के दिनों  
४ हम उस के समीप न जाते थे। और सारी मण्डली ने  
कहा हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि यह बात उन सब लोगों  
५ को ठीक जची। सो दाऊद ने मिस्र के शीहार से ले  
हमात की घाटी ली के सब इस्राएलियों को इसलिये  
इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यत्थारीम से  
६ ले आएँ। तब दाऊद सब इस्राएलियों के संग लेकर  
बाला को गया जो किर्यत्थारीम भी कहावता और यहूदा  
के भाग में था कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले  
आएँ वह तो करुबों पर बिराजनेद्वारा है और उस का  
७ नाम भी लिया जाता है, सो उन्होंने ने परमेश्वर का  
संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से  
निकाला और उजा और अहो उस गाड़ी को हांकने लगे।  
८ और दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के साम्हने  
तन मन से गीत गाते और वीणा सारंगी डफ़ झांझ  
९ और तुरहियां बजाते थे। जब वे कीदोन के खलिहान  
तक आये तब उजा ने अना हाथ संदूक थामने को  
१० बढ़ाया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का  
कोप उजा पर भड़क उठा और उस ने उस को मारा  
क्योंकि उस ने संदूक पर हाथ लगाया था वह वहीं पर-  
११ मेश्वर के साम्हने मर गया। तब दाऊद अपसन्न हुआ  
इसलिये कि यहोवा उजा पर टूट पड़ा था और उस ने  
उस स्थान का नाम 'पेरेसुजा' रक्खा यह नाम आज लो  
१२ बना है। और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर  
कहने लगा मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहां क्योंकर  
१३ ले आऊँ। सो दाऊद ने संदूक को अपने यहां दाऊद-  
पुर में न पहुँचाया पर ओबेदेदेम नाम गती के यहां  
१४ हटा ले गया। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदेम के  
यहां उम के घराने के पास तीन महीने रहा और यहोवा  
ने ओबेदेदेम के घराने पर और जो कुछ उस का था  
उस पर भी आशिष दी ॥

**१४. और** सोर के राजा हीराम ने दाऊद  
के पास दूत और उस का  
मवन बनाने को देवदारु की लकड़ी और राज और

बढ़ई भेजे। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा  
ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया क्योंकि  
उस की प्रजा इस्राएल के निमित्त उस का राज्य अत्यन्त  
बढ़ गया था ॥

और यरूशलेम में दाऊद ने और जिर्था ब्याह ली १  
और और बेटे बेटियां जन्माईं। उस के जो सन्तान ४  
यरूशलेम में उत्पन्न हुए उन के ये नाम हैं अर्थात् शम्भू  
शीबाब नातान सुलैमान, पिभार एलीश एलपेलेत, ५  
नोगद नेपेग यापी, एलीशामा बेलथादा और एलीपेलेत ॥ ६, ७

जब पलिशित्यों ने सुना कि सारे इस्राएल का राजा ८  
होने के लिये दाऊद का अभियेक हुआ तब सब पलि-  
शित्यों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की यह सुनकर  
दाऊद उन का साम्हना करने को निकल गया। सो ९  
पलिशती आये और रपाईम नाम तराई में धावा किया  
था। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा क्या मैं पलिशित्यों १०  
पर चढ़ाई करूँ और क्या मैं उन्हें मेरे हाथ कर देगा यहोवा  
ने उस से कहा चढ़ाई कर क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ कर  
दूंगा। सो जब वे बालपरासीम को आये तब दाऊद ने ११  
उन को वहीं मार लिया, तब दाऊद ने कहा परमेश्वर  
मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाईं टूट  
पड़ा है इस कारण उस स्थान का नाम बालपरासीम १२  
रक्खा गया। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गये १३  
और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिये  
गये। फिर दूसरी बार पलिशित्यों ने उसी तराई में धावा १४  
किया। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और १५  
परमेश्वर ने उस से कहा उन का पीछा मत कर उन से  
मुड़कर दूत इच्छों के साम्हने से उन पर छापा मार।  
और जब दूत इच्छों की फुनगियों में से सेना के चलने १६  
की सी आदत तुम्हें सुन पड़े तब यह जानकर युद्ध करने  
को निकल जाना कि परमेश्वर पलिशित्यों को सेना  
मारने को मेरे आगे पधारा है। परमेश्वर की इस आज्ञा १६  
के अनुसार दाऊद ने किया और इस्राएलियों ने पलिशित्यों  
की सेना को गिबोन से लेकर गोजेर लो मार लिया।  
तब दाऊद की कीर्त्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा १७  
ने सब जातियों के मन में उस का डर उपजाया ॥

**१५. तब** दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाये

और परमेश्वर के संदूक के लिये एक  
स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने १  
कहा लेवीयों को छोड़ और किसी को परमेश्वर  
का संदूक उठाना नहीं चाहिये क्योंकि यहोवा ने उन्हीं

(१) अर्थात् उजा पर टूट पड़ना।

(२) अर्थात् टूट पड़ने का स्थान।

को इसलिये चुना है कि परमेश्वर का संदूक उठाएँ और  
 ३ उस की सेवा टहल एदा किया करें । सो दाऊद ने सब  
 इस्राएलियों को यरुशलैम में इसलिये इकट्ठा किया कि  
 यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुँचाएँ जिसे उस ने  
 ४ उस के लिये तैयार किया था । तब दाऊद ने हाकून के  
 ५ सन्तानों और इन लेवीयों को इकट्ठा किया, अर्थात्  
 कहातियों में से ऊरीएल नाम प्रधान को और उस के  
 ६ एक सौ बीस भाइयों को, मरारीयों में से असायाह नाम  
 ७ प्रधान को और उस के दो सौ बीस भाइयों को, गैशोमियों  
 में से योएल नाम प्रधान को और उस के एक सौ तीस  
 ८ भाइयों को, एलीसापानियों में से शमायाह नाम प्रधान  
 ९ को और उस के दो सौ भाइयों को, हेब्रोणियों में से एलीएल  
 १० नाम प्रधान को और उस के अस्सी भाइयों को, और  
 उब्बीएलियों में से अम्मीनादाब नाम प्रधान को और उस  
 ११ के एक सौ बारह भाइयों को । तब दाऊद ने सादेक और  
 एम्बातार नाम बाजकों को और ऊरीएल असायाह योएल  
 शमायाह एलीएल और अम्मीनादाब नाम लेवीयों को  
 १२ बुलावाकर, उन से कहा तुम तो लेवीय पितरों के घराने में  
 मुख्य पुरुष हो सो अपने भाइयो समेत अपने अपने को  
 पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक  
 उस स्थान पर पहुँचा सको जिस को मैं ने उस के लिये तैयार  
 १३ किया है । क्योंकि पहिली बार तुम लोग उस को न लाये थे  
 इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर दंट पड़ा क्योंकि  
 १४ हम उस की खोज में नियम के अनुसार न लगे थे । सो  
 बाजकों और लेवीयों ने अपने अपने को पवित्र किया कि  
 इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सकें ।  
 १५ तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का च्चन  
 सुनकर दी थी लेवीयों ने संदूक को डंडों के बल अपने  
 १६ कंधों पर उठा लिया । और दाऊद ने प्रधान लेवीयों को  
 आज्ञा दी कि अपने भाई गानेहारों को बाजे अर्थात्  
 सारंगी बीणा और भाँक देकर बजाने और आनन्द के  
 १७ साथ ऊँचे स्वर से गाने को ठहराओ । सो लेवीयों ने  
 योएल के पुत्र हेमान को और उस के भाइयों में से  
 बेरेन्याह के पुत्र आसाव को और अपने भाई मरारीयों  
 १८ में से कूशायाह के पुत्र एतान को ठहराया । और उन के  
 साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात्  
 जकर्याह बेन याजीएल शमीरामोत यहीएल उर्जा एली-  
 आब बनायाह भासेयाह मत्तित्याह एलीपलेह मिकनेयाह  
 और ओबेदेदोम और पीएल को जो डेवढीदार थे ठहराया ।  
 १९ यो हेमान आसाव और एतान नाम गानेहारों तो पीतल  
 २० की भाँक बजा बजाकर राग चलाने को, और जकर्याह  
 याजीएल शमीरामोत यहीएल उर्जा एलीआब भासेयाह

और बनायाह अलामोत नाग राग में सारंगी बजाने को,  
 और मत्तित्याह एलीपलेह मिकनेयाह ओबेदेदोम पीएल २१  
 और अजज्याह बीणा खर्ज में छेड़ने को ठहराये गये । और २२  
 उठाने का अधिकारी कनन्याह नाम लेवीयों का प्रधान  
 था वह उठाने के विषय शिक्षा देता था क्योंकि वह  
 निपुण था । और बेरेन्याह और एलकाना संदूक के २३  
 डेवढीदार थे । और शबन्याह योशापात नतनेल अमासै २४  
 जकर्याह बनायाह और एलीएजेर नाम बाजक परमेश्वर  
 के संदूक के आगे आगे तुरहियां बजाते हुए चले और  
 ओबेदेदोम और यहिय्याह उस के डेवढीदार थे । और दाऊद २५  
 और इस्राएलियों के पुरनिये और सहस्रपति सब मिलकर  
 यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनन्द  
 के साथ ले आने को गये । जब परमेश्वर ने यहोवा की २६  
 वाचा का संदूक उठानेहारे लेवीयों की सहायता की  
 तब उन्होंने ने सात बेल और सात मेढे बलि किये ।  
 दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठानेहारे सब २७  
 लेवीय और गानेहारे और गानेहारों के साथ उठानेहारों का  
 प्रधान कनन्याह थे सब तो सन के कपड़े के बागे पहिने  
 थे और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहिने था । यों २८  
 सारे इस्राएली यहोवा की वाचा के संदूक को जयजयकार  
 करते और नरसिंगे तुरहियां और भाँक बजाते और  
 सारंगियां और बीणा सुनाते हुए ले चले । जब यहोवा २९  
 की वाचा का संदूक दाऊदपुर लौ पहुँचा तब दाऊद  
 की बेटी मीकल ने खिड़की में से भाँककर दाऊद राजा  
 को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन  
 तुच्छ माना ॥

१६. तब परमेश्वर का संदूक ले आकर

उस तंबू में रक्खा गया जो दाऊद  
 ने उस के लिये खड़ा कराया था और परमेश्वर के साम्हने  
 होमबलि और मेलबलि चढ़ाये गये । जब दाऊद होम- २  
 बलि और मेलबलि चढ़ा चुका तब उस ने यहोवा के नाम  
 से प्रजा को आशीर्वाद दिया । और उस ने क्या पुरुष ३  
 क्या स्त्री सब इस्राएलियों को एक एक रोटी और एक  
 एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया  
 बंटवा दी ॥

तब उस ने कितने एक लेवीयों को इसलिये ४  
 ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के साम्हने से सेवा  
 टहल किया करें और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की  
 चर्चा और उस का धन्यवाद और स्तुति किया करें । उन ५  
 का मुखिया तो आसाव था और उस के नीचे जकर्याह  
 था फिर पीएल शमीरामोत यहीएल मत्तित्याह एलीआब  
 बनायाह ओबेदेदोम और पीएल थे वे तो सारंगियां और

- कीबाण लिये हुए थे और आसाप कांक बजाकर राग  
६ चलाता था । और बनायाह और यहजीएलनाम राजक  
परमेश्वर की वाचा के संदूक के साम्हने तुरहियां नित्य  
बजाने को ठहराये गये ॥
- ७ बहिले उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद  
करने का काम आसाप और उस के भाइयों को सौंप दिया ।
- ८ यहोवा का धन्यवाद करो उस से प्रार्थना करो  
देश देश में उस के कामों का प्रचार करो ।
- ९ उस का गीत गाओ उस का मखन गाओ  
उस के सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो ।
- १० उस के पवित्र नाम पर बड़ाई करो  
यहोवा के खोजियों का हृदय आनन्दित हो ।
- ११ यहोवा और उस के सामर्थ्य की खोज करो  
उस के दर्शन के लगातार खोजी रहे ।
- १२ उस के किये हुए आश्चर्यकर्म  
उस के चमत्कार और न्यायवचन स्मरण करो ।
- १३ हे उस के दास इस्राएल के वंश  
हे याकूब की सन्तान तुम जो उस के चुने हुए हो,  
१४ वही हमारा परमेश्वर यहोवा है  
उस के न्याय के काम पृथिवी भर में होते हैं ।
- १५ उस की वाचा को सदा लो स्मरण रखो  
सो वही वचन है जो उस ने हजार पीढ़ियों के लिये  
ठहरा दिया ।
- १६ वह वाचा उस ने इब्राहीम के साथ बांधी  
और उसी के विषय उस ने इसहाक से किरि था खाई ।
- १७ और उसी को उस ने याकूब के लिये बिधि करके  
इस्राएल के लिये यह कहकर सदा की वाचा बांधकर  
दृढ़ किया कि,  
१८ मैं कनान देश तुम्ही को दूंगा  
वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा ।
- १९ उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे  
वरन बहुत ही थोड़े और उस देस में परदेशी थे ।
- २० और वे एक जाति से दूसरी जाति में  
और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे,  
२१ पर उस ने किसी मनुष्य को उन पर अन्धे कराने न  
दिया  
और वह राजाओं को उन के निमित्त यह धमकी  
देता था कि,  
२२ मेरे अभिषिक्तों को मत छूओ  
और न मेरे नबियों की हानि करो ।
- २३ हे सारी पृथिवी के लोगो यहोवा का गीत गाओ

(१) मूल में जिस को आसाप उस ने हजार पादियों के लिये दी ।

- दिन दिन उस के किये हुए उदार का शुभसमाचार  
सुनाते रहे ।
- अन्यजातियों में उस की महिमा का २४  
और देश देश के लोगों में उस के आश्चर्य कर्मों  
का वर्णन करो ।
- क्योंकि यहोव महान और स्तुति के अति योग्य है २५  
वह तो सारे देवताओं से अधिक भययोग्य है ।
- क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तों ही हैं २६  
पर यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है ।
- उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य्य है २७  
उस के स्थान में सामर्थ्य और आनन्द है ।
- हे देश देश के कुली यहोवा का गुणानुवाद करो २८  
यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो ।
- यहोवा के नाम की महिमा मानो २९  
भेंट लेकर उस के सम्मुख आओ  
पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दरदबत  
करो ॥
- हे सारी पृथिवी के लोगो उस के साम्हने धरथ- ३०  
राओ जगत ऐसा स्थिर भी है कि वह टलने का नहीं ।  
आकाश आनन्द करे और पृथिवी मगन हो और ३१  
जाति जाति में लोग कहें कि यहोवा राजा हुआ है ।  
समुद्र और उस में की सारी वस्तुएं गरज उठें ३२  
मैदान और जो कुछ उस में है सो प्रफुल्लित हो ।
- उसी समय बन के रक्ष यहोवा के साम्हने जयजयकार ३३  
करें
- क्योंकि वह पृथिवी का न्याय करने को आनेहारा है ।  
यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है ३४  
उस की कस्यथा सदा की है ।
- और यह कहे कि हे हमारे उदार करनेहारे परमेश्वर ३५  
हमारा उदार कर  
और हम को इकट्ठा करके अन्यजातियों से छुड़ा  
कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें  
और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई मारें  
अनादिकाल से अनन्तकाल लो ३६
- इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है ।  
तब सारी प्रजा ने आमेन कहा और यहोवा की  
स्तुति की ।
- तब उस ने वहां अर्थात् यहोवा की वाचा के संदूक ३७  
के साम्हने आसाप और उस के भाइयों को छोड़ दिया  
कि दिन दिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के साम्हने  
नित्य सेवा टहल किया करें, और अड़सठ भाइयों ३८  
समेत ओबेदेदोम के और डेवड़ीदारी के लिये यदून



- ३९ के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को जोष दिया । फिर उस ने सादोक याजक और उस के भाई याजकों को यहोवा के निवास के साम्हने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था
- ४० ठहरा दिया कि वे नित्य सर्वे और सांभू को होमबलि की वेदी पर यहोवा को होमबलि चढ़ाया करें और उस सब के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा
- ४१ है जिसे उस ने इस्राएल को दिया था । और उन के संग उस ने हेमान और यदून और उन दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गये थे ठहरा दिया कि यहोवा की सदा
- ४२ की कृपा के कारण उस का धन्यवाद करें । और उन के संग उस ने हेमान और यदून को बजानेहारों के लिये तुरहियां और भांभे और परमेश्वर के गीत गाने के लिये बाजे दिये और यदून के बेटों को फाटक की रखवाली
- ४३ करने को ठहरा दिया । निदान प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गये और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया ॥

(दाऊद का मन्दिर बनाने की इच्छा करना और यहोवा का दाऊद के बस में सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देना)

### १७. जब दाऊद अपने भवन में रहता था तब दाऊद नातान नबी से

- कहने लगा देख मैं ती देवदार के बने हुए घर में रहता हूँ
- २ पर यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है । नातान ने दाऊद से कहा जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर
- ३ क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है । उसी दिन रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुँचा कि,
- ४ जाकर मेरे दास दाऊद से कह यहोवा यों कहता है कि मेरे निवास के लिये तू घर बनवाने न पाएगा । क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन लौं मैं कभी घर में नहीं रहा पर एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता
- ५ हूँ । जहाँ जहाँ मैं ने सारे इस्राएलियों के बीच आया जाया किया क्या मैं ने इस्राएल के न्यायियों में से जिन को मैं ने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिये देवदार का घर क्यों नहीं बनवाया । सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं ने तो तुम्हें को मेड़शाला से और मेड़बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी
- ६ प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए । और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सारे शत्रुओं को तेरे साम्हने से नाश किया है । फिर मैं तेरे नाम को पृथिवी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान

- बड़ा कर दूंगा । और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिये एक स्थान ठहराऊँगा और उस को स्थिर करूँगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी । और कुटिल लोग उन को नाश न करने पाएँगे जैसे कि पहिले दिनों में करते थे, और उस
- १० समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था और मैं तेरे सारे शत्रुओं को दबा दूँगा । फिर मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाये रखेगा । जब तेरी आयु पूरी हो जायगी और
- ११ तुम्हें अपने पितरों के संग रहना पड़ेगा तब मैं तेरे पीछे तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उस के राज्य को स्थिर करूँगा । मेरे लिये एक घर वही बनाएगा
- १२ और मैं उस की राजगद्दी को सदा लौं स्थिर रखूँगा । मैं उस का पिता ठहरूँगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा और
- १३ जैसे मैं ने अपनी कृपा उस पर से जो तुम्हें से पहिले था हटाई वैसे मैं उसे उस पर से न हटाऊँगा । वरन
- १४ मैं उस को अपने घर और अपने राज्य में सदा लौं स्थिर रखूँगा और उस की राजगद्दी सदा लौं अटल रहेगी । इन ग्यब बातों और इस सारे दर्शन के अनुसार नातान
- १५ ने दाऊद को समझा दिया ॥

- तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख
- १६ बैठा और कहने लगा हे यहोवा परमेश्वर मैं तो क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तू ने मुझे यहाँ लौं पहुँचाया है । और हे परमेश्वर यह तेरी दृष्टि में छोटी
- १७ सी बात हुई क्योंकि तू ने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है और हे यहोवा परमेश्वर तू ने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा
- १८ जाना है । जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उस के विषय दाऊद तुम्हें से और क्या कह सकता है तू तो अपने दास की जानता है । हे यहोवा तू ने अपने दास
- १९ के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उस को जान ले । हे यहोवा
- २० जो कुछ हम ने अपने कानों से सुना है उस के अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और न तुम्हें छोड़ और कोई परमेश्वर है । फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है वह तो
- २१ पृथिवी भर में एक ही जाति है उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया इसलिये कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी प्रजा के साम्हने से जो तू ने मिस्र से छुड़ा ली थी जाति जाति के लोगों को निकाल दे । क्योंकि तू ने अपनी प्रजा
- २२ इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिये ठहराया

(१) वा ऊपर से आनेहार आदम ।

और हे यहोवा तू आप उस का परमेश्वर ठहर गया ।  
 २३ सो अब हे यहोवा तू ने जो वचन अपने दास के और  
 उस के घराने के विषय दिया है सो सदा लों अटल रहे  
 २४ और अपने कहे के अनुसार ही कर । और तेरा नाम सदा  
 लों अटल रहे और यह कहकर उस की बढ़ाई सदा की  
 जाए कि सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर  
 है सो इस्राएल के हित का परमेश्वर है और तेरे दास  
 २५ दाऊद का घराना तेरे साम्हने स्थिर हुआ है । क्योंकि हे  
 मेरे परमेश्वर तू ने यह कहकर अपने दास पर यह प्रगट  
 किया है कि मैं तेरा घर बनाये रखूँगा । इस कारण तेरे  
 दास को तेरे सन्मुख प्रार्थना करने का हियाव हुआ है ।  
 २६ और अब हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ने अपने  
 दास से यह भलाई करने का वचन दिया है । और अब  
 २७ तू ने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशिष  
 दी है कि वह तेरे सन्मुख सदा लों बना रहे क्योंकि हे यहोवा  
 तू आशिष दे चुका है सो वह सदा के लिये धन्य है ॥

(दाऊद के विजयों का संक्षेप वर्णन)

१८. इस के पीछे दाऊद ने पलिशतियों

का जीतकर अपने अधीन कर  
 लिया और गांवों समेत गत नगर को पलिशतियों के हाथ  
 २ से छीन लिया । फिर उस ने मोआबियों को भी जीत  
 लिया और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने  
 ३ लगे । फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानद  
 के पास आना राज्य स्थिर करने को जा रहा था तब  
 ४ दाऊद ने उस को हमात के पास जीत लिया । और दाऊद  
 ने उस से एक हजार रथ सात हजार सवार और बीस  
 हजार पियादे हर लिये और दाऊद ने सब रथवाले घोड़ों  
 के मुस की नस कटवाई पर एक सौ रथवाले घोड़े बचा  
 ५ रखे । और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा  
 हदरेजेर की सहायता करने को आये तब दाऊद ने अरा-  
 ६ मियों में से बाईस हजार पुरुष मारे । तब दाऊद ने  
 दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई सो  
 अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे । और  
 जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उस को  
 ७ जिताता था । और हदरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने  
 की जो ढालें थीं उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया ।  
 ८ और हदरेजेर के तिभत और कून नाम नगरों से दाऊद  
 बहुत ही पीतल ले आया और उसी के सुलैमान ने  
 पीतल के ांगाल और खम्भों और पीतल के पात्रों को  
 ९ बनवाया । और जब हमात के राजा तोऊ ने सुना कि  
 दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजेर की सारी सेना को जीत

(१) मूल में हाथ ।

लिया, तब उस ने हदोराम नाम अपने पुत्र को दाऊद १०  
 राजा के पास उस का कुशल लेम पूछने और इसलिये  
 उसे बधाई देने को भी भेजा कि उस ने हदरेजेर से लड़  
 कर उसे जीत लिया था क्योंकि हदरेजेर तोऊ से लड़ा  
 करता था । और हदोराम सोने चांदी और पीतल के सब  
 प्रकार के पात्र लिये हुए आया । इन को दाऊद राजा ने ११  
 यहोवा के लिये पवित्र करके रक्खा और वैसा ही सब  
 जातियों से अर्थात् एदेमियों मोआबियों अम्मोनियों  
 पलिशतियों और अमालेकियों से हरे हुए सोने चांदी से  
 किया । फिर सरूयाह के पुत्र अबीशै ने लोन की तराई १२  
 में अठारह हजार एदेमियों को मार लिया । तब उस ने १३  
 एदेम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदेमी  
 दाऊद के अधीन हो गये । और दाऊद जहां जहां जाता  
 वहां वहां यहोवा उस को जिताता था ॥

(दाऊद के कर्मचारियों की नामावली)

दाऊद तो सारे इस्राएल पर राज्य करता था और १४  
 वह अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम  
 करता था । और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब १५  
 था इतिहास का लिखनेहारा अहीलूद का पुत्र यहोशा-  
 पात था । प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और १६  
 एब्द्यातार का पुत्र अबीमेलोक ये मंत्री शयशा था, करे- १७  
 तियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बना-  
 याह था और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिये  
 होकर रहते थे ॥

(अम्मोनियों पर विजय)

१९. इस के पीछे अम्मोनियों का राजा नाहाश

मर गया और उस का पुत्र उस के  
 स्थान पर राजा हुआ । तब दाऊद ने यह सोचा २  
 कि हानून के पिता नाहाश ने जो मुझ पर प्रीति  
 दिखाई थी सो मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊँगा  
 सो दाऊद ने उस के पिता के विषय शांति देने के  
 लिये दूत भेजे । और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों  
 के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आये । पर ३  
 अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे दाऊद ने जो  
 तेरे पास शांति देनेहारे भेजे हैं सो क्या तेरी समझ में तेरे  
 पिता का आदर करने की मनसा से भेजे हैं क्या उस के  
 कर्मचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं आये कि बूढ़  
 ढांडू करें और उलट दें और देश का मैद लें । तब हानून ४  
 ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उन के बाल  
 मुंडवाये और आधे वस्त्र अर्थात् नितम्ब लों कटवाकर  
 उन को जाने दिया । तब कितनों ने जाकर दाऊद को ५  
 बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया

गया सो उस ने लोगों को उन से मिलने के लिये भेजा क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते थे और राजा ने कहा जब लो तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाएं तब लो यरीहो में उधरे रहो और पीछे लौट आना । जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को बिनाने लगे हैं तब हानून और अम्मोनियों ने एक हजार किक्कार चांदी अरसहरैम और अरम्माका और लौबा को भेजी कि रथ और सवार वेतन पर बुलाएं । सो उन्होंने बत्तीस हजार रथ और माका के राजा और उस की सेना को वेतन पर बुलाया और इन्होंने आकर मेदबा के साम्हने अपने डेरे खड़े किये । और अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने के आये । यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की सारी सेना को भेजा । तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांति बंधी और जो राजा आये थे सो उन से न्यारे मैदान में थे । यह देखकर कि आगे पीछे दोनों और हमारे विरुद्ध पांति बंधी हैं योआब ने सब बड़े बड़े इस्त्राएली वीरों में से कितनों को छांटकर अरामियों के साम्हने उन की पांति बंधाई, और शेष लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया और उन्होंने अम्मोनियों के साम्हने पांति बंधी । और उस ने कहा यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा । तू हियाव बांध और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें और यहोवा जैसा उस को अच्छा लगे वैसा ही करेगा । तब योआब और जो लोग उस के साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उन के साम्हने गये और वे उस के साम्हने से भागे । यह देखकर कि अरामी भाग गये हैं अम्मोनी भी उस के भाई अबीशै के साम्हने से भागकर नगर के भीतर धुसे । तब योआब यरूशलेम को लौट आया । फिर यह देखकर कि हम इस्त्राएलियों से हार गये अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया और हदरेजेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया । इस का समाचार पाकर दाऊद ने सारे इस्त्राएलियों को इकट्ठा किया और यर्दन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उन के विरुद्ध पांति बंधाई और जब दाऊद ने अरामियों के विरुद्ध पांति बंधाई तब वे उस से लड़ने लगे । पर अरामी इस्त्राएलियों से भागे और दाऊद ने उन में से सात हजार रथियों और चालीस हजार प्यादों को मार डाला और शोपक सेनापति को भी मार डाला । यह देखकर कि हम इस्त्राएलियों से हार गये हैं हदरेजेर के कर्मचारियों ने दाऊद

से संधि की और उस के अधीन हो गये और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाही ॥

२०. फिर नये बरस के लगने के समय जब

राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं तब योआब ने भारी सेना संग ले जाकर अम्मोनियों का देश उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर लिया पर दाऊद यरूशलेम में रह गया और योआब ने रब्बा को जीतकर दा दिया । तब दाऊद ने उन के राजा का मुकुट उस के सिर से उतारके क्या पाया कि इस का तोल किक्कार भर सोने का है और उस में मणि भी जड़े थे सो वह दाऊद के सिर पर रखा गया । फिर उस ने उस नगर से बहुत ही लूट पाई । और उस ने उस के रहनेहारों को निकालकर आरों और लोहे के हेंगों और कुल्हाड़ियों से कटवाया और अम्मोनियों के सब नगरों से दाऊद ने वैसा ही किया । तब दाऊद सब लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया ॥

इस के पीछे गेजेर में पत्तिरितियों के साथ युद्ध हुआ उस समय हूशई सिब्वकै ने सिप्पै को जो रापा की सन्तान का था, मार डाला और वे दब गये । और पत्तिरितियों के साथ फिर युद्ध हुआ उस में याईर के पुत्र एलहानान ने गती गोल्यत के भाई लहमी को मार डाला जिस के बछे की लुड़ ढंके के समान थी । फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां एक बड़े डोल का पुरुष था जो रापा की सन्तान का था और उस के एक एक हाथ पांव में छः छः अंगुली अर्थात् सब मिलाकर चौबीस अंगुली थीं । जब उस ने इस्त्राएलियों को ललकारा तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उस को मारा । ये ही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उस के जनों से मार डाले गये ॥

(दाऊद का अपनी प्रजा की गिनती लेना और इस पाप के दंड और पापमोचन के द्वारा मन्दिर का स्थान ठहराया जाना)

२१. और शैतान ने इस्त्राएल के विरुद्ध

उठकर दाऊद को उसकाया कि इस्त्राएलियों की गिनती ले । सो दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा तुम जाकर बेशैबा से ले दान लो के इस्त्राएल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जानूं कि वे कितने हैं । योआब ने कहा यहोव की प्रजा के कितने ही क्यों न हों वह उन को सो गुना बढ़ा दे पर ते मेरे प्रभु हे राजा क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है वह इस्त्राएल पर दौष लगने का कारण क्यों बने । तीभी राजा की आज्ञा

योआब पर प्रबल हुई तो योआब विदा हो सारे इस्राएल में घूम कर यरूशलेम को लौट आया । तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया और सब तलवारिये पुरुष इस्राएल के तो ग्यारह लाख और यहूदा के चार लाख सत्तर हजार ठहरे । पर इन में योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना क्योंकि वह राजा की आज्ञा से चिन करता था । और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी तो उस ने इस्राएल को मारा । और दाऊद ने परमेश्वर से कहा यह काम जो मैं ने किया सो बड़ा पाप है पर अब अपने दास का अधर्म दूर कर मुझ से तो बड़ी मूर्खता हुई है । तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यों कहता है कि मैं तुझ को तीन विपत्तियां दिखाता हूं उन में से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं । सो गाद ने दाऊद के पास जाकर उस से कहा यहोवा यों कहता है कि जिस को तू चाहे उसे चुन ले, कह तो तीन बरस का काल पड़े वा तीन महीने लों तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहें और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे वा तीन दिन लों यहोवा की तलवार चले अर्थात् मरी देश में फैले और यहोवा का दूत सारे इस्राएली देश में विनाश करता रहे । अब सोच कि मैं अपने भेजनहारे का क्या उत्तर दूं । दाऊद ने गाद से कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूं मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं क्योंकि उस की दया बहुत बड़ी है पर मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े । सो यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई और इस्राएल में से सत्तर हजार पुरुष मर मिटे । फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम का भी उसे नाश करने को भेजा और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा देखकर दुःख देने से पड़ताया और नाश करनेहारे दूत से कहा बस कर अब अपना हाथ खींच । और यहोवा का दूत यबूसीओनोन के खलिहान के पास खड़ा था । और दाऊद ने आखि उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिये हुए पृथिवी और आकाश के बीच खड़ा है सो दाऊद और पुरनिये टाट पहिने हुए मुंह के बल गिरे । तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा जिस ने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी सो क्या मैं नहीं हूं हां जिस ने पाप किया और बहुत बुराई की है सो तो मैं ही हूं पर इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है सो हे मेरे परमेश्वर यहोवा तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के बराने के बिरुद्ध ही पर तेरी प्रजा के बिरुद्ध न हां कि वे मारे जाएं । तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी

कि दाऊद चढ़कर यबूसीओनोन के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए । गाद के इस वचन के अनुसार १९ जो उस ने यहोवा के नाम से कहा था दाऊद चढ़ गया । तब ओनोन ने पीछे फिर के दूत को देखा और उस के चारों बेटे जो उस के संग थे छिप गये ओनोन ती गेहूं दांवता था । जब दाऊद ओनोन के पास आया तब ओनोन ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि लों भुककर दाऊद को दण्डवत् की । तब दाऊद ने ओनोन से कहा इस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनऊं उस का पूरा दाम लेकर उसे मुझ को दे कि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए । ओनोन ने दाऊद से कहा इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए सोई वह फरे सुन मैं तुझे होमबलि के लिये बैल और ईंधन के लिये दांवने के हाथियार और अन्नबलि के लिये गेहूं यह सब मैं दे देता हूं । राजा दाऊद ने ओनोन से कहा सो नहीं मैं अवश्य इस का पूरा दाम देकर इसे माल लूंगा क्योंकि जो तेरा है सो मैं यहोवा के लिये न लूंगा और न संतमेंत का होमबलि चढाऊंगा । सो दाऊद ने उस स्थान के लिये ओनोन को छः सौ शेकेल से ना तौलकर दिया । तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होमबलि और मेलबलि चढाकर यहोवा से प्रार्थना की और उस ने होमबलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उस की सुन ली । तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उस ने अपनी तलवार मियान में फिर रक्खी ॥

उसी समय यह देखकर कि यहोवा ने यबूसीओनोन के खलिहान में मेरी सुन ली है दाऊद ने वहां बलिदान किया । यहोवा का निवास तो जो मूसा ने जंगल में बनाया था और होमबलि की वेदी ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे । पर दाऊद परमेश्वर के पास उस के साम्हने न जा सका क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था ॥

२२. तब दाऊद कहने लगा यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इस्राएल के लिये होमबलि की वेदी यही है ॥

(मन्दिर के बनाने की तैयारी और उस में जो भक्ति भान्नि को उपासना और उपासकों का प्रबन्ध)

सो दाऊद ने इस्राएल के देश में के परदेशियों को हकट्टा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को उत्थर गठने के लिये राज ठहरा दिये । फिर दाऊद ने फाटकों के किराड़ों की कीलों और जोड़ों के लिये बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल, और गिनती

- से बाहर देवदार के पेड़ इकट्ठे किये क्योंकि सीदान और सौर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदार के पेड़ लाये । और दाऊद ने कहा मेरा पुत्र सुलैमान सुकुमार और लड़का है और जो भवन यहेवा के लिये बनना है सो अत्यन्त तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिये मैं उस के लिये तैयारी करूंगा । सो दाऊद ने मरने से पहिले बहुत तैयारी की ॥
- ६ फिर उस ने अपने पुत्र सुलैमान को बुलाकर इस्राएल के परमेश्वर यहेवा के लिये भवन बनाने की आज्ञा दी । दाऊद ने अपने पुत्र सुलैमान से कहा मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहेवा के नाम का एक भवन बनाऊँ । पर यहेवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि तू ने लोह बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किये हैं तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा क्योंकि तू ने ९ भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लोह बहाया है । सुन तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा और मैं उस को चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूँगा उस का नाम तो सुलैमान होगा और उन के दिनों में मैं इस्राएल को १० शांति और चैन दूँगा । वही मेरे नाम का भवन बनाएगा और वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उस का पिता ठहरूँगा और उस की राजगद्दी को मैं इस्राएल के ऊपर सदा ११ लौं स्थिर रखूँगा । अब हे मेरे पुत्र यहेवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहेवा ने तेरे विषय कहा है उस का भवन १२ बनाना । इतना ही कि यहेवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने १३ परमेश्वर यहेवा की व्यवस्था को मानता रहे । तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करे जिन की आज्ञा यहेवा ने इस्राएल के लिये मूसा को दी थी हियाब बांध और ढङ्ग ही मत डर १४ और तेरा मन कच्चा न हो । सुन मैं ने अपने वलेश के समय यहेवा के भवन के लिये एक लाख किकार सोना और दस लाख किकार चाँदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है और लकड़ी और पत्थर मैं ने इकट्ठे किये हैं १५ और तू उन को बढ़ा सकेगा । और तेरे पास बहुत कारीगर हैं अर्थात् पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़नेहारे बरन सब भाँति के काम के लिये सब प्रकार १६ के प्रवीण पुरुष हैं । सोने चाँदी पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है सो उस काम में लग जा और

यहेवा तेरे संग रहे । फिर दाऊद ने इस्राएल के सब १७ हाकिमों को अपने पुत्र सुलैमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी कि, क्या तुम्हारा परमेश्वर यहेवा तुम्हारे संग नहीं है क्या उस ने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया उस ने तो देश के निवासियों को मेरे वश कर दिया है और देश यहेवा और उस की प्रजा के सामने दबा हुआ है । अब तन मन से अपने परमेश्वर यहेवा के पास जा ॥ करे और जी लगाकर यहेवा परमेश्वर का पवित्रस्थान बनाना कि तुम यहेवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहेवा के नाम का बननेवाला है ॥

### २३. दाऊद तो बूढ़ा बरन बहुत पुरनिया हो गया था सो उस ने अपने

पुत्र सुलैमान को इस्राएल पर राजा ठहराया । तब उस ने इस्राएल के सब हाकिमों और याजकों और लेवीयों को इकट्ठा किया । और जितने लेवीय तीस बरस के और उस से अधिक आयु के थे सो गिने गये और एक एक पुरुष के गिनने से उन की गिनती अड़तीस हजार ठहरी । इन में से चौबीस हजार तो यहेवा के भवन का काम चलाने के लिये हुए और छः हजार सरदार और न्यायी, और चार हजार डेनडीदार हुए और चार हजार उन बाजों से यहेवा की स्तुति करने के लिये ठहरे जो दाऊद ने स्तुति करने की बनाये थे । फिर दाऊद ने उन को गेशीन कहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया । गेशीनियों में से तो लादान और शिमी थे । और लादान के पुत्र मुख्य यहीएल फिर जेताम और योएल तीन । और शिमी के पुत्र शलोमीत हजीएल और हारान तीन । लादान के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे । फिर शिमी के पुत्र यहत जीना यूश और बरीआ के पुत्र शिमी यही चार थे । यहत मुख्य था और जीजा दूसरा यूश और बरीआ के बहुत बेटे न हुए इस कारण वे मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे । कहात के पुत्र अम्माम यिसहार हेब्रोन और उर्जाएल चार । अम्माम के पुत्र हारून और मूसा और हारून तो इस लिये अलग किया गया कि वह और उस के सन्तान सदा लौ परमपवित्र वस्तुओं को पवित्र करें और सदा लौ यहेवा के सन्मुख धूप जलाया करें और उस की सेवा टहल करें और उस के नाम से अशीर्वाद दिया करें ।

१४ परन्तु परमेश्वर के जन मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र  
 १५ के बीच गिने गये । मूसा के पुत्र, गैशोम और एलीएजेर ।  
 १६, १७ और गैशोम के पुत्र शबूएल मुख्य, और  
 एलीएजेर के पुत्र रहब्याह मुख्य और एलीएजेर के और  
 कोई पुत्र न हुआ पर रहब्याह के बहुत ही बेटे हुए ।  
 १८, १९ बिसहार के पुत्रों में से शलोमीत मुख्य ठहरा । हेन्नोन  
 के पुत्र यरीय्याह मुख्य दूसरा अमर्याह तीसरा यहजी-  
 २० एल और चौथा यकमाम । उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य  
 २१ ती मीका और दूसरा यिशिशय्याह था । मरारी के पुत्र  
 महली और मूशी । महली के पुत्र एलाजार और  
 २२ कीश । एलाजार निपुत्र मर गया उस के केवल बेटियां  
 हुईं सो कीश के पुत्रों ने जो उन के भाई थे उन्हें ब्याह  
 २३ लिया । मूशी के पुत्र महली एदेर और यरोमोत तीन ।  
 २४ लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे ये नाम  
 ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गये और बीस बरस  
 की वा उस से अधिक अवस्था के थे और यहोवा के भवन  
 २५ में सेवा का काम करते थे । क्योंकि दाऊद ने कहा इस्त्रा-  
 एल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा के विश्राम दिया  
 और वह तो यरुशलेम में सदा के लिये बस गया है,  
 २६ और लेवीयों को निवास और उस में की उपासना का  
 २७ सामान फिर उठाना न पड़ेगा । क्योंकि दाऊद की  
 पिछली आशाओं के अनुसार बीस बरस वा उस से अधिक  
 २८ अवस्था के लेवीय गिने गये । क्योंकि उन का काम तो  
 हारून की सन्तान की सेवा टहल करना था अर्थात् यह  
 कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं  
 के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन में की  
 २९ उपासना के सारे कामों में सेवा टहल करें और भेंट की  
 रोटी का अन्नबालियों के मैदे का और अखमीरी पपड़ियों  
 का और तवे पर बनाये हुए और सने हुए का और मापने  
 ३० और तौलने के सब प्रकार का काम करें । और भोर भोर  
 और सांभ सांभ को यहोवा का धन्यवाद और उस की  
 ३१ स्तुति करने के लिये खड़े रहा करें, और विश्रामदिनों  
 और नये चान्द के दिनों और नियत पार्यों में गिनती के  
 नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होमबालियों को  
 ३२ चढाएँ, और यहोवा के भवन की उपासना के विषय  
 मिलापवाले तबू और पवित्रस्थान की रक्षा करें और अपने  
 भाई हारूनिधों के साथे हुए काम को चौकसी से करें ॥

**२४. फिर** हारून की सन्तान के दल  
 ये ठहरे । हारून के पुत्र तो

१ नादाब अभीहू एलाजार और ईतामार हुए । पर नादाब  
 और अभीहू अपने पिता के साम्हने निपुत्र मर गये सो  
 ३ आजक का काम एलाजार और ईतामार करते थे । और

दाऊद और एलाजार के वंश के सादोक और ईतामार  
 के वंश के अहीमेलोक ने उन को अपनी अपनी सेवा के  
 अनुसार दल दल करके बाँट दिया । और एलाजार के  
 ४ वंश के मुख्य पुरुष ईतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से  
 अधिक थे सो वे यों बाँटे गये अर्थात् एलाजार के वंश के  
 पितरों के घरानों के सोलह और ईतामार के वंश के  
 पितरों के घरानों के आठ मुख्य पुरुष ठहरे । सो वे चिट्ठी  
 ५ डालकर बराबर बराबर बाँटे गये क्योंकि एलाजार और  
 ईतामार दोनों के वंशों में पवित्रस्थान के हाकिम और  
 परमेश्वर के हाकिम हुए थे । और नतनेल के पुत्र  
 ६ शमायाह ने जो लेवीय था उन के नाम राजा और हाकिमों  
 और सादोक याजक और एब्यातार के पुत्र अहीमेलोक  
 और याजकों और लेवीयों के पितरों के घरानों के मुख्य  
 पुरुषों के साम्हने लिखे अर्थात् पितरों का एक घराना  
 तो एलाजार के वंश में से और एक ईतामार के वंश में  
 से लिया गया । पहिली चिट्ठी तो यहोयारीब के और  
 ७ दूसरी यदायाह के, तीसरी हारीम के चौथी सेरीम के,  
 ८ पांचवीं मलिकय्याह के छठवीं मिय्यामीन के, सातवीं ९ १०  
 हक्कोस के आठवीं अबिय्याह के, नौवीं येरू के दसवीं ११  
 शकन्याह के, ग्यारहवीं एल्याशीब के बारहवीं याकीम के, १२  
 तेरहवीं हुप्पा के चौदहवीं येशैबाब के, पन्द्रहवीं १३, १४  
 बिल्या के सोलहवीं इम्मेर के, सत्रहवीं हेजीर के अठारहवीं १५  
 हम्पिःसेस के, उन्नीसवीं पतल्लाह के बीसवीं यहजेकल के, १६  
 इन्कीसवीं याकीन के बाईसवीं गामूल के, तेईसवीं १७, १८  
 दल्लायह के और चौबीसवीं माज्याह के नाम पर निकली  
 उन की सेवकाई के लिये उन का यही नियम ठहराया १९  
 गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इस्त्राएल के  
 परमेश्वर यहोवा की आशा के अनुसार उन के मूलपुरुष  
 हारून ने चलाया था यहोवा के भवन में जाया करें ॥

फिर लेवीय अम्माम के वंश में से शूबाएल, शूबाएल २०  
 के वंश में से येहदयाह । रहब्याह के, रहब्याह के वंश २१  
 में से यिशिशय्याह मुख्य था । बिसहारियों में से शलोमीत २२  
 और शलोमीत के वंश में से यहत । और हेन्नान के वंश में २३  
 से मुख्य तो यरिय्याह दूसरा अमर्याह तीसरा यहजीएल  
 और चौथा यकमाम । उज्जीएल के वंश में से मीका और २४  
 मीका के वंश में से शामीर । मीका का भाई यिशिशय्याह २५  
 यिशिशय्याह के वंश में से जकर्याह । मरारी के पुत्र २६  
 महली और मूशी और याजिय्याह का पुत्र बनो । मरारी २७  
 के पुत्र, याजिय्याह के, बनो और शोहम जफ्कु और  
 इब्री । महली के, एलाजार जित के कोई पुत्र न हुआ । २८  
 कीश के कीश के वंश में यरझेल । और मूसी के पुत्र २९, ३०  
 महली एदेर और यरीमोत अपने अपने पितरों के घरानों

३१ के अनुसार ये ही लेवीय थे । इन्हो ने भी अपने भाई हारून के सन्तानों की नाई दाऊद राजा और सादोक और अहीमेलोक और याजकों और लेवीयों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के साम्हने चिट्ठियां डालीं अर्थात् मुख्य पुरुष के पितरों का घराना उस के छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा ॥

**२५. फिर** दाऊद और सेनापतियों ने

आसाप हेमान और यदूतन के कितने पुत्रों को सेवकाई के लिये अलग किया कि वे बीणा सारंगी और आंभ बजा बजाकर नबूषत करें और इस सेवकाई का काम करनेहारे मनुष्यों की गिनती यह २ थी, अर्थात् आसाप के पुत्रों में से तो बन्कूर योसेप नतन्याह और अशरेला आसाप के ये पुत्र आसाप ही की आज्ञा में थे जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूषत करता था । फिर यदूतन के पुत्रों में से गदल्याह सरी यशायाह इसन्याह मत्तियाह ये ही छः अपने पिता यदूतन की आज्ञा में होकर जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर करके नबूषत करता था बीणा बजाते थे । और हेमान के पुत्रों में से मुक्कियाह मत्तन्याह उब्जीएल शबूएल यरीमोत इनन्याह इनानी एलीआता गिहलती रोममतीएजेर योशबकाशा मल्लोती होती और महली ५ थीत थे । ये सब हेमान के पुत्र थे जो राजा का दर्शा होकर नरसिंगा बजाता हुआ परमेश्वर के वचन सुनाता था और परमेश्वर ने हेमान को चौदह बेटे और तीन ६ बेटियां दीं । ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिये अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवकाई में आंभ सारंगी और बीणा बजाते थे और आसाप यदूतन और हेमान आप राजा के अधीन रहते ७ थे । भाइयों समेत इन सभी की गिनती जो यहोवा के गीत सीखे हुए थे और सब निपुण थे दो सौ अठासी ८ थी । और उन्हो ने क्या बड़ा क्या छोटा क्या गुफ क्या ९ चेला अपनी अपनी बारी के लिये चिट्ठी डाली । और पहिली चिट्ठी आसाप के बेटों में से योसेप के नाम पर निकली दूसरी गदल्याह के नाम पर जिस के पुत्र और १० भाई उस समेत बारह थे । तीसरी जकूर के नाम पर जिस ११ के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । चौथी यिस्की के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । १२ पांचवीं तनन्याह के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस १३ समेत बारह थे । छठीं बुक्कियाह के नाम पर जिस के १४ पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । सातवीं यसरेला के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । १५ आठवीं यशायाह के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस

समेत बारह थे । नौवीं मत्तन्याह के नाम पर जिस के १६ पुत्र और भाई समेत बारह थे । दसवीं शिमी के नाम १७ पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । ग्यारहवीं १८ अजरेल के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । बारहवीं हशम्यास के नाम पर जिस के पुत्र १९ और भाई उस समेत बारह थे । तेरहवीं शूबाएल के २० नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । चौदहवीं मत्तियाह के नाम पर जिस के पुत्र और भाई २१ उस समेत बारह थे । पन्द्रहवीं यरेमोत के नाम पर जिस २२ के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । सोलहवीं इनन्याह २३ के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । सत्रहवीं योशबकाशा के नाम पर जिस के पुत्र और भाई २४ उस समेत बारह थे । अठारहवीं इनानी के नाम पर जिस २५ के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । उन्नीसवीं मल्लोती २६ के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । बीसवीं एलियाता के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस २७ समेत बारह थे । इक्कीसवीं होतीर के नाम पर जिस के पुत्र २८ और भाई उस समेत बारह थे । बाईसवीं गिहलती के नाम २९ पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । तेईसवीं ३० महजीओत के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । और चौबीसवीं चिट्ठी रोममतीएजेर के नाम ३१ पर निकली जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे ॥

**२६. फिर** बैवदीदारों के दल थे ये, कोर-हियों में से तो मशैलेम्याह जी

कोर का पुत्र और आसाप के सन्तानों में से था । और १ मशैलेम्याह के पुत्र हुए अर्थात् उस का जेठा जकर्याह २ दूसरा यदीएल तीसरा जवद्याह चौथा यकीएल, पांचवां ३ एलाम छठवां यहोहानान और सातवां एल्यहोएनै । फिर ४ ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए उस का जेठा शमायाह दूसरा यहोजाबाद तीसरा योआह चौथा साकार पांचवां नतनेल, ५ छठवां अम्मीएल सातवां इस्ताकार और आठवां पुल्लै ६ क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशिष दी थी । और उस के ७ पुत्र शमायाह के भी पुत्र उत्पन्न हुए जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे । शमायाह के पुत्र ये थे अर्थात् ओली रपाएल ओबेद ८ एलजाबाद और उन के भाई एलीहू और समन्याह बलवान् थे । ये सब ओबेदेदोम की सन्तान में से थे वे ९ और उन के पुत्र और भाई इस सेवकाई के लिये बलवान् और शक्तिमान् थे ये ओबेदेदोमी बासठ थे । और मशैले- १० म्याह के पुत्र और भाई थे जो अठारह बलवान् थे । फिर १० मगरी के बंश में से होश के भी पुत्र थे अर्थात् मुख्य तो शिम्री जिस को जेठा न होने पर भी उस के पिता ने

- ११ मुख्य ठहराया । दूसरा हिल्किव्याह तीसरा तबल्याह और चौथा जकर्याह था होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर
- १२ तेरह हुए । डेवदीदारों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा
- १३ टहल करते थे । इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिये
- १४ चिट्ठी डाली । पूरब और की चिट्ठी शोलेम्याह के नाम पर निकली तब उन्होंने उस के पुत्र जकर्याह के नाम की चिट्ठी डाली (वह बुद्धिमान मंत्री था) और चिट्ठी उत्तर
- १५ और के लिये निकली । दक्खिन और के लिये ओबोदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उस के बेटों के नाम पर
- १६ खजाने की कोठरी के लिये । फिर शुप्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी पच्छिम और के लिये निकली कि वे शल्लेकेत नाम फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आम्हने साम्हने
- १७ चौकी दिया करें । पूरब और तो छुः लेवीय थे उत्तर और दिन दिन चार दक्खिन और दिन दिन चार और खजाने की कोठरी के पास दो दो ठहरें । पच्छिम और के पर्वार नाम स्थान पर सड़क के पास तो चार और पर्वार ही के
- १९ पास दो रहे । डेवदीदारों के दल तो ये थे इन में से कितने तो कोरह के और कितने मरारी के वंश के थे ॥
- २० फिर लेवीयों में से अहिव्याह परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भण्डारों का अधिकारी ठहरा । लादान के सन्तान थे ये अर्थात् गेशोनियों के सन्तान जो लादान के कुल के थे अर्थात् लादान गेशोनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे अर्थात् यहोएली ।
- २२ यहोएली के पुत्र थे ये अर्थात् जेताम और उस का भाई
- २३ योएल जो यहोवा के भवन के अधिकारी थे । अम्मामियों
- २४ यिसहारियों हेब्रोनियों और उज्जीएलियों में से, शबूएल जो मूसा के पुत्र गैशोम के वंश का था सो खजानों का
- २५ मुख्य अधिकारी था । और उस के भाइयों का वृत्तान्त यह है एलीएजेर के कुल में उस का पुत्र रहब्याह रहब्याह का पुत्र यशायाह यशायाह का पुत्र योराम योराम का
- २६ पुत्र जिक्की और जिक्की का पुत्र शलोमोत था । यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भण्डारों का अधिकारी था जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्रपतियों और
- २७ शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी । जो लूट लड़ाइयों में मिलती था उस में से उन्होंने ने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिये कुछ पवित्र किया । बरन जितना शमुएल दर्शा क्रीश के पुत्र शाऊल नेर के पुत्र अन्नेर और सरुयाह के पुत्र योआब ने पवित्र किया था और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रक्खा था सो सब

शलोमोत और उस के भाइयों के अधिकार में था । यिसहारियों में से कनन्याह और उस के पुत्र इस्राएल के देश का काम अर्थात् सरदार और न्यायी का काम करने के लिये ठहरे थे । और हेब्रोनियों में से हशब्याह और उस के भाई जो सत्रह सौ बलवान पुरुष थे सो यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यर्दन की पच्छिम ओर रहनेहारे इस्राएलियों के अधिकारी ठहरे । हेब्रोनियों में से यरिव्याह मुख्य था अर्थात् हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के चालीसवें बरस में वे दूढ़े गये और उन में से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले । और उस के भाई जो वीर थे पितरों के घरानों के दो हजार सात सौ मुख्य पुरुष थे । इन को दाऊद राजा ने परमेश्वर के सब विषयों और राजा के विषय में रुबेनियों गादियों और मनश्शे के आवे गोत्र के अधिकारी ठहराया ॥

(दारा का प्रबन्ध)

## २७. इस्राएलियों की गिनती अर्थात् पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य

पुरुषों और सहस्रपतियों और शतपतियों और उन के सरदारों की गिनती जो बरस भर के महीने महीने हाजिर होने और छुट्टी पानेहारे दलों के सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे एक एक दल में चौबीस हजार थे । पहिले महीने के लिये पहिले दल का अधिकारी जब्दीएल का पुत्र याशोबाम ठहरा और उस के दल में चौबीस हजार थे । वह परिस के वंश का था और पहिले महीने में सभ सेनापतियों का अधिकारी था । और दूसरे महीने के दल का अधिकारी दोदै नाम एक अहोही था और उस के दल का प्रधान मिक्लोत था और उस के दल में चौबीस हजार थे । तीसरे महीने के लिये तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का पुत्र बनायाह था और उस के दल में चौबीस हजार थे । यह वही बनायाह है जो तीसों शरों में वीर और तीसों में श्रेष्ठ भी था और उस के दल में उस का पुत्र अम्मीजाबाद था । चौथे महीने के लिए चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था और उस के पीछे उस का पुत्र जबद्याह था और उस के दल में चौबीस हजार थे । पांचवें महीने के लिये पांचवा सेनापति यिज्राही शम्हूत था और उस के दल में चौबीस हजार थे । छठवें महीने के लिये छठवा सेनापति तकोई इन्केश का पुत्र ईरा था और उस के दल में चौबीस हजार थे । सातवें महीने के लिये सातवा सेनापति एप्रैम के वंश का हेलेस पलोनी था और उस के दल में चौबीस हजार थे । आठवें महीने के लिये आठवा सेनापति जेरह



- के वंश में से हूशई सिन्धके था और उस के दल में  
 १२ चौबीस हजार थे । नौवें महीने के लिये नौवां सेनापति  
 बिन्यामीनी अबाएजेर अनातोतवासी था और उस के  
 १३ दल में चांभीस हजार थे । दसवें महीने के लिये दसवां  
 सेनापति जेरही महरै नलोपावासी था और उस के दल में  
 १४ चांभीस हजार थे । ग्यारहवें महीने के लिये ग्यारहवां  
 सेनापति एप्रैम के वंश का बनायाह गिरातोतवासी था और  
 १५ उस के दल में चौबीस हजार थे । बारहवें महीने के लिये  
 बारहवां सेनापति ओकीएल के वंश का हेल्दै नलोपावासी  
 था और उस के दल में चौबीस हजार थे ॥
- १६ फिर इस्राएली गोत्रों के ये अधिकारी ठहरे अर्थात्  
 रुवेनियों का प्रधान जिक्की का पुत्र एलीएजेर शिमोनियों  
 १७ का माका का पुत्र शफयाह, लेवी का कमूएल का पुत्र  
 १८ इशयाह हारून की सन्तान का सादोक, यहूदा का  
 एलीहू नाम दाऊद का एक भाई इस्राकार का भीका-  
 १९ एल का पुत्र ओमी, जबूलून का ओबद्याह का पुत्र  
 २० यिशमायाह नताली का अज्रीएल का पुत्र यरीमोत, एप्रैम  
 का अजज्याह का पुत्र होशे मनश्शे के आधे गोत्र का,  
 २१ पयायाह का पुत्र योएल, गिलाद में आधे मनश्शे का  
 जकर्याह का पुत्र इहो बिन्यामीन का अग्नेर का पुत्र  
 २२ यासीएल और दान का यारोहाम का पुत्र अजरेल  
 २३ ठहरा इस्राएल के गोत्रों के हाकिम ये ही ठहरे । पर  
 दाऊद ने उन की गिनती बीस बरस की अवस्था के नीचे  
 न की क्योंकि यहोवा ने इस्राएल की गिनती आकाश के  
 २४ तारों के बराबर लौ बढ़ाने को कहा था । सरुयाह का  
 पुत्र योआह गिनती लेने लगा तो सही पर न निभटाया  
 और इस कारण ईश्वर का कोप इस्राएल पर भड़का और  
 यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास में नहीं लिखी गई ॥
- २५ फिर राज भण्डारों का अधिकारी अदीएल का पुत्र  
 अजमावेत था और दिहात और नगरों और गांवों और  
 गुम्मतों के भण्डारों का अधिकारी उज्जियाह का पुत्र  
 २६ यहानातान था । और जो भूमि को जीत लेकर खेती  
 २७ करते थे उन का अधिकारी कलूब का पुत्र एज्री था । और  
 दाख की बारियों का अधिकारी रामाई शिमी और दाख  
 की बारियों की उपज जो दाखमधु के भण्डारों में रखने के  
 २८ लिये थी उस का अधिकारी शापामी जब्दी था । और  
 नीचे के देश के जलपाई और गूलर के वृक्षों का अधि-  
 कारी गदेरी बाल्हानान था और तेल के भण्डारों का  
 २९ अधिकारी योआश था । और शारेन में चरनेहारे गाय-  
 बैलों का अधिकारी शारोनी शिभै था और तराह्यों में के  
 गाय बैलों का अधिकारी अदलै का पुत्र शापात था ।  
 ३० और ऊंटों का अधिकारी इश्माएली ओबील और

गदहियों का अधिकारी मेरोनोतवासी येहदयाह, और मेइ- ३१  
 बकरियों का अधिकारी हमी याजीब था । राजा दाऊद  
 के धन संपत्ति के अधिकारी ये ही सब ठहरे ॥

और दाऊद का भतीजा<sup>२</sup> योनातान एक समझदार ३२  
 मंत्री और शास्त्री था और किसी हम्मोनी का पुत्र एही-  
 एल राजपुत्रों के संग रहा करता था । और अहालंपेल ३३  
 राजा का मंत्री था और एगेकी हूशै राजा का मित्र था ।  
 और अहीतोपेल के पीछे बनायाह का पुत्र यहोयादा ३४  
 और एव्यातार मन्त्री ठहरे और राजा का प्रधान सेनापति  
 योआब था ॥

(दाऊद की पिछली सभा और उस की मृत्यु)

२८. और दाऊद ने इस्राएल के सब  
 हाकिमों के अर्थात् गोत्रों के  
 हाकिमों और और राजा की सेवा टहल करनेहारे दलों के  
 हाकिमों के और सहस्रपतियों और शतपतियों और राजा  
 और उस के पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के  
 अधिकारियों सरदारों और गांरों और सब शूरवीरों को यरू-  
 शलेम में बुलवाया । तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने २  
 लगा हे मेरे भाइयो और हे मेरी प्रजा के लोगो मेरी सुनो  
 मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिये  
 और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पाठी के लिये  
 विश्राम का एक भवन बनाऊं और मैं ने उस के बनाने की  
 तैयारी की थी । परन्तु परमेश्वर ने मुझ से कहा तू मेरे ३  
 नाम का भवन बनाने न पाएगा क्योंकि तू युद्ध करने-  
 हारा है और तू ने लोहू बढाया है । तौभी इस्राएल के ४  
 परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी  
 को चुन लिया कि इस्राएल का राजा सदा बना रहूं  
 अर्थात् उस ने यहूदा को प्रधान होने के लिये और यहूदा  
 के घराने में से मेरे पिता के घराने का चुन लिया और मेरे  
 पिता के पुत्रों में से वह मुझी का सारे इस्राएल का राजा  
 करने के लिये प्रसन्न हुआ । और मेरे सब पुत्रों में से ५  
 (यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिये हैं) उस ने मेरे पुत्र  
 सुलैमान को चुन लिया है कि वह इस्राएल के ऊपर  
 यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे । और उस ने मुझ ६  
 से कहा कि तेरा पुत्र सुलैमान ही मेरे भवन और  
 आंगनों को बनाएगा क्योंकि मैं ने उस को चुन लिया है  
 कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उस का पिता ठहरूंगा । और ७  
 यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आज  
 कल की नाई हट रहे तो मैं उस का राज्य सदा लौ  
 स्थिर रखूंगा । सो अब इस्राएल के देखते अर्थात् ८

- यहोवा की मण्डली के देखते और अपने परमेश्वर के सुनते अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहे इसलिये कि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने पीछे अपने बंश का सदा का भाग होने के लिये छोड़ जाओ । और हे मेरे पुत्र सुलैमान तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उस की सेवा करता रह क्योंकि यहोवा मन मन को जानता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है यदि तू उस की खोज में रहे तो वह तुझ से मिलेगा पर यदि तू उस को त्यागे तो वह सदा के लिये ९ तुझ को छोड़ देगा । अब चौकस रह यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्रस्थान ठहरे दियाव बांधकर इस काम में लग जाना ॥
- ११ तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलैमान को मन्दिर के ओसारे कोठरियों भण्डारों अटारियों भीतरी कोठरियों १२ और प्रायश्चित्त के ढकने के स्थान का नमूना, और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भण्डारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भण्डारों को जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उस को मिले थे सो सब दे दिये । फिर याजकों और लेवीयों के दलों और यहोवा के भवन में की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन में की सेवा के सारे १४ सामान, अर्थात् सब प्रकार की सेवा के लिये सोने के पात्रों के निमित्त सोना तौलकर और सब प्रकार की सेवा के १५ लिये चान्दी के पात्रों के निमित्त चांदी तौलकर, और सोने की दीवटों के लिये और उन के दीपकों के लिये एक एक दीवट और उस के दीपकों का सोना तौल कर और चान्दी के दीवटों के लिये एक एक दीवट और उस के दीपक की चांदी एक एक दीवट के काम के अनुसार १६ तौलकर, और भेंट की रोटी की मेजों के लिये एक एक मेज का सोना तौल कर और चांदी की मेजों के लिये १७ चांदी, और चोखे सोने के कांटों कटोरों और प्यालों और सोने की कटोरियों के लिये एक एक कटोरी का सोना तौलकर और चान्दी की कटोरियों के लिये एक एक १८ कटोरी की चांदी तौलकर, और धूप की वेदी के लिये वाया हुआ सोना तौलकर और रथ अर्थात् यहोवा की वाचा का संदूक छानेहारे और पंख फैलाये हुए करुंभों के १९ नमूने का सोना दे दिया । मैं ने यहोवा की शक्ति से जो मुझ को मिला यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है । २० फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलैमान से कहा दियाव बांध

(१) वा अपने आत्मा में ।

और दृढ़ होकर इस काम में लग जाना मत डर और तेरा मन कच्चा न हो क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है सो तेरे संग है और जब लौ यहोवा के भवन में जितना काम करना हो सो न हो चुके तब लौ वह न तो तुझे घोखा देगा और न तुझे त्यागेगा । और २१ सुन परमेश्वर के भवन के सब काम के लिये याजकों और लेवीयों के दल ठहराये गये हैं और सब प्रकार की सेवा के लिये सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करनेहारे बुद्धिमान् पुरुष भी तेरा साथ देंगे और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भा जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे ॥

२१. फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा मेरा पुत्र सुलैमान

सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है काम तो भारी है क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिये नहीं यहोवा परमेश्वर के लिये बनेगा । मैं ने तो २ अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिये सोना चांदी की वस्तुओं के लिये चांदी पीतल की वस्तुओं के लिये पीतल लोहे की वस्तुओं के लिये लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिये लकड़ी और सुलैमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पत्थी के काम के लिये रज्ज रज्ज के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है । फिर ३ मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है इस कारण जो कुछ मैं ने पवित्र भवन के लिये इकट्ठा किया है उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी का मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिये दे देता हूँ, अर्थात् तीन हजार किक्कार ओपीर का ४ सोना और सात हजार किक्कार ताई हुई चांदी जिस से कोठरियों की भीतें मढ़ी जाएं, और सोने की वस्तुओं के लिये सोना और चांदी की वस्तुओं के लिये चांदी और कारीगरों से बनानेवाले सब प्रकार के काम के लिये मैं उसे देता हूँ । और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिये अपने को अर्पण कर देता है । तब पितरों के घरानों के ६ प्रधानों और इस्राएल के गोत्रों के हाकिमों और सदस-पतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिका- ७ रियों ने अपनी अपनी इच्छा से, परमेश्वर के भवन के काम के लिये पांच हजार किक्कार और दस हजार दर्क-नोन सोना दस हजार किक्कार चांदी अठारह हजार किक्कार पीतल और एक लाख किक्कार लोहा दे दिया ।

(२) मूल में अपना हाथ भरता है ।

- ८ और जिन के पास मणि थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिये गेशॉनी यहोएल के हाथ में दे दिया ।
- ९ तब प्रजा के लोग आनन्दित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिये भेंट दी थी और दाऊद राजा बहुत ही
- १० आनन्दित हुआ । सो दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा हे यहोवा हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर अनदिक्काल से
- ११ अनन्तकाल लो तू धन्य है । हे यहोवा महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव तेरा ही है क्योंकि आकाश और पृथिवी में जो कुछ है सो तेरा ही है हे यहोवा राज्य तेरा है और तू सभों के ऊपर मुख्य और महान् ठहरा
- १२ है । धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं और तू सभों के ऊपर प्रभुता करता है सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में हैं और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना
- १३ तेरे हाथ में है । सो अब हे हमारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं ।
- १४ मैं तो क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम को इस रीति अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले तुम्हीं से तो सब कुछ मिलता है और हम ने तेरे हाथ से पाकर
- १५ तुम्हें दिया है । हम तो अपने सब पुरखाओं की नाईं तेरे लेखे उपरी और परदेशी हैं पृथिवी पर हमारे दिन छाया
- १६ की नाईं नीते जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं । हे हमारे परमेश्वर यहोवा वह जो बड़ा संचय हम ने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिये इकट्ठा किया है सो तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है ।
- १७ और हे मेरे परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिघाई से प्रसन्न रहता है मैं ने तो यह सब कुछ मन की सिघाई और अपनी इच्छा से दिया है और अब मैं ने आनन्द से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहां हाजिर हैं सो अपनी इच्छा से तेरे लिये
- १८ भेंट देते हैं । हे यहोवा हे हमारे पुरखा इब्राहीम इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाये रख और उन के मन अपनी
- १९ और लगाये रख । और मेरे पुत्र सुलैमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं चित्तोनियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे और

उस भवन को बनाए जिस की तैयारी मैं ने की है । तब दाऊद ने सारी सभा से कहा तुम अपने परमेश्वर २० यहोवा का धन्यवाद करो सो सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दण्डवत् की । और उस दिन के विधान २१ को उन्होंने यहोवा के लिये बलिदान किये अर्थात् अग्निसमेत एक हजार बैल एक हजार भेड़ें और एक हजार भेड़ के बच्चे होमबलि करके चढ़ाये और सारे इस्राएल के लिये बहुत से मेलबलि करके, उसी दिन यहोवा के २२ साम्हने बड़े आनन्द से खाया और पिया । फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलैमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिये उस का और याजक होने के लिये सादोक का अभिषेक किया । तब २३ सुलैमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और भाग्यमान हुआ और सारे इस्राएल ने उस की मानी । और सब हाकिमों और २४ शूरवीरों और राजा दाऊद के सब पुत्रों ने सुलैमान राजा की अधीनता अंगीकार की । और यहोवा ने सुलैमान को २५ सारे इस्राएल के देखते बहुत बढ़ाया और उसे ऐसा राजकीय ऐश्वर्य दिया जैसा उस से पहिले इस्राएल के किसी राजा का न हुआ था ॥

यों यिरी के पुत्र दाऊद ने सारे इस्राएल के ऊपर २६ राज्य किया । और उस के इस्राएल पर राज्य करने का २७ समय चात्तीस बरस था उस ने सात बरस तो हेब्रोन और तैंतीस बरस यरुशलेम में राज्य किया । और वह २८ पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और विभव मनमाना मोगकर मर गया और उस का पुत्र सुलैमान उस के स्थान पर राजा हुआ । आदि से अन्त २९ लो राजा दाऊद के सब कामों का इत्तान्त, और उस के ३० सारे राज्य और पराक्रम का और उस पर और इस्राएल पर बरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता इस का भी इत्तान्त शमूएल दर्शा और नातान नबी और गाद दर्शा की लिखी हुई पुस्तकों में लिखा हुआ है ॥

(१) मूल में दिनों बन और विभव से तृप्त । (२) मूल में के बचनों में ।

# इतिहास नाम पुस्तक । दूसरा भाग ।

(सुलैमान के राज्य का आरम्भ)

## १. दाऊद का पुत्र सुलैमान राज्य में स्थिर हो गया और उस का

परमेश्वर यहोवा उस के संग रहा और उस को बहुत ही बढ़ाया । और सुलैमान ने सारे इस्राएल से अर्थात् सहस्रपतियों शतपतियों न्यायियों और सारे इस्राएल में के सब रईसों से जो पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे बातें कीं । और सुलैमान सारी मण्डली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया क्योंकि परमेश्वर का मिलाप-वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था सो वहीं था । परन्तु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किर्यत्थारोम से उस स्थान पर ले आया था जो उस ने उस के लिये तैयार किया था उस ने तो उस के लिये यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था । और पीतल की जो वेदी ऊरी के पुत्र बसलेल ने जो हूर का पीता था बनाई थी सो गिबोन में यहोवा के निवास के साम्हने थी सो सुलैमान मण्डली समेत उस के पास गया । और वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के साम्हने मिलापवाले तंबू के पास थी सुलैमान ने उस पर एक हजार होमबलि चढ़ाये ॥

उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलैमान को दर्शन देकर उस से कहा जो कुछ तू चाहे कि मैं तुम्हें दूँ सो मांग । सुलैमान ने परमेश्वर से कहा तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझ को उस के स्थान पर राजा किया है । अब हे यहोवा परमेश्वर जो वचन तू ने मेरे पिता दाऊद को दिया था सो पूरा हो तू ने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा किया जो भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत है । अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के साम्हने आया जाया कर सकूँ क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके । परमेश्वर ने सुलैमान से कहा तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई अर्थात् तू ने न तो धन संपत्ति मांगी है न ऐश्वर्य्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी केवल बुद्धि और ज्ञान का वर

मांगा है जिस से तू मेरी प्रजा का जिस के ऊपर मैं ने तुम्हें राजा किया है न्याय कर सके, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुम्हें दिया जाता है और मैं तुम्हें इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य्य दूँगा जितना न तो तुम्ह से पहिले किसी राजा को मिला और न तेरे पीछे किसी राजा को मिलेगा । तब सुलैमान गिबोन के ऊंचे स्थान से अर्थात् मिलाप-वाले तंबू के साम्हने से यरूशलेम को आया और वहाँ इस्राएल पर राज्य करने लगा ॥

फिर सुलैमान ने २५ और सवार इकट्ठे कर लिये और उस के चौदह सौ २५ और बारह हजार सवार हुए और उन को उस ने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रक्खा । और राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चान्दी का लेखा पत्थरों का सा और देवदारों का लेखा बहुतायत के कारण नीचे के देश के गूलरों का सा हो गया । और जो घोड़े सुलैमान रखता था सो मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें भुण्ड भुण्ड करके ठहराये हुए दाम पर लिया करते थे । एक २५ तौ छः सौ शेकेल चान्दी पर और एक चौड़ा डेढ़ सौ शेकेल पर मिस्र से आता था और इसी दाम पर वे हितियों के सारे राजाओं और अराम के राजाओं के लिये उन्हीं के द्वारा लाया करते थे ॥

(मन्दिर का बनाना)

## २. और सुलैमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राज-

भवन बनाने की मनसा की । सो सुलैमान ने सत्तर हजार बोभिये और अस्सी हजार पहाड़ पर पत्थर निकालने-हारे और वृक्ष काटनेहारे और इन पर तीन हजार छः सौ मुखिये गिनती करके ठहराये । तब सुलैमान ने सार के राजा हूराम के पास कहला भेजा कि जैसा तू ने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया अर्थात् उस के रहने का भवन बनाने का देवदार भेजे थे वैसा ही अब मुझ से भी बर्ताव कर । सुन मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उस के लिये पवित्र करूँ और उस के सन्मुख सुगन्धित धूप जलाऊँ और नित्य भेंट की रोटी उस में रखी जाय और दिन दिन सबेरे और सांझ के और विभाम और नये चांद के दिनों और

हमारे परमेश्वर यहीवा के सब नियत पथों में होमबलि चढ़ाया जाय । इस्राएल के लिये ऐसी ही सदा की विधि है ।  
 ५ और जो भवन में बनाने पर हूँ सो महान् होगा क्योंकि  
 ६ हमारा परमेश्वर सब देवताओं से महान है । पर किस की इतनी शक्ति है कि उस के लिये भवन बनाए वह तो स्वर्ग में बरन सब से ऊँचे स्वर्ग में भी नहीं समाता सो मैं क्या हूँ कि उस के साम्हने धूप जलाने को छाँड़ और  
 ७ किसी मनसा से उस का भवन बनाऊँ । सो अब तू मेरे पास एक ऐमा मनुष्य भेज दे जो सोने चाँदी पीतल लोहे और बैजनी लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराये हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो  
 ८ मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं काम करे । फिर लवानोन से मेरे पास देवदार सनौबर और चंदन की लकड़ी भेजना मैं तो जानता हूँ कि तेरे दास लवानोन में वृक्ष काटना जानते हैं और तेरे दासों के संग मेरे दास भी  
 ९ रहकर, मेरे लिये बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे क्योंकि जो भवन में बनाने चाहता हूँ सो बड़ा और अचंभे के  
 १० योग्य होगा । और तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उन को मैं बीस हजार केर कूटा हुआ गेहूँ बीस हजार केर जब बीस हजार बत दाखमधु और बीस हजार बत तेल  
 ११ दूंगा । तब सेर के राजा हुराम ने चिट्ठी लिखकर सुलैमान के पास भेजी कि यहीवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है इस से उस ने तुझे उन का राजा कर दिया । फिर हुराम ने यह भी लिखा कि धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहीवा जो आकाश और पृथिवी का सिरजनेहारा है और उस ने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान चतुर और समझदार पुत्र दिया है जो यहीवा का एक भवन और  
 १३ अपना राजभवन भी बनाए । सो अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को अर्थात् अपने बाबा हुराम को भेजता हूँ । वह तो एक दानी स्त्री का बेटा है और उस का पिता सेर का पुरुष था और वह सोने चान्दी पीतल लोहे पत्थर लकड़ी बैजनी और नीले और लाल और लक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता और सब भाँति की कारीगरी बना सकता है सो तेरे चतुर मनुष्यों के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उस को भी काम मिले ।  
 १५ सो अब मेरे प्रभु ने जो गेहूँ जब तेल और दाखमधु भेजने की चर्चा की है उसे अपने दासों के पास भिजवा  
 १६ दे । और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन

हो उतनी लवानोन बर से काटेंगे और बेड़े बनवाकर समुद्र के मार्ग से यापो को पहुँचाएँगे और तू उसे यरूशलेम को ले जाना । तब सुलैमान ने इस्राएली देश १७ में के सब परदेशियों की गिनती ली यह उस गिनती के पीछे हुई जो उस के पिता दाऊद ने ली थी और वे डेढ़ लाख तीन हजार छः सौ पुरुष निकले । उन में से १८ उस ने सत्तर हजार बोझिये अस्सी हजार पहाड़ पर पत्थर निकालनेहारे और वृक्ष काटनेहारे और तीन हजार छः सौ उन लोगों से काम करानेहारे मुखिये ठहरा दिये ॥

### ३. तब सुलैमान ने यरूशलेम में मोरिष्याह नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहीवा

का भवन बनाना आरंभ किया जिसे उस के पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओर्नान के खलिहान में तैयार किया था । उस ने अपने राज्य के चौथे बरस के २ दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना आरंभ किया । परमेश्वर का जो भवन सुलैमान ने बनाया उस का यह ३ दब है अर्थात् उस की लंबाई तो प्राचीनकाल की नाप के अनुसार षट् हाथ और उस की चौड़ाई बीस हाथ की थी । और भवन के साम्हने के ओसारे की लंबाई तो ४ भवन की चौड़ाई के बराबर बीस हाथ की थी और उस की ऊँचाई एक सौ बीस हाथ की थी और सुलैमान ने उस को भीतरवार चोखे सोने से मढ़वाया । और भवन के बड़े ५ भाग की छत उस ने सनौबर की लकड़ी से पटवाई और उस को अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई । फिर शोभा ६ देने के लिये उस ने भवन में मणि जड़बाये । और यह सोना पर्वम का था । और उस ने भवन को अर्थात् उस की कड़ियों डेबड़ियों भीतों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और भीतों पर करुब खुदवाये । फिर उस ने ८ भवन के परमपवित्र स्थान को बनाया उस की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर बीस हाथ की थी और उस की चौड़ाई बीस हाथ की थी और उस ने उसे छः सौ किन्कार चोखे सोने से मढ़वाया । और सोने की कीलों का तौल ९ पचास शेकेल था और उस ने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया । फिर भवन के परमपवित्र स्थान में उस ने १० नक्काशी के काम के दो करुब बमवाये और वे सोने से मढ़ाये गये । करुबों के पंख तो सब मिलाकर बीस हाथ लंबे ११ थे अर्थात् एक करुब का एक पंख पाँच हाथ का और भवन की भीत लों गहुँचा हुआ था और उस का दूसरा पंख पाँच हाथ का था और दूसरे करुब के पंख से लुआ था । और दूसरे करुब का भी एक पंख पाँच हाथ का १२ और भवन की दूसरी भीत लों गहुँचा था और दूसरा

पंच पांच हाथ का और पहिले करुब के पंच से सटा  
 १३ हुआ था । उन करुबों के पंच बीच हाथ लों फैले हुए थे  
 और वे अपने अपने पांशों के बल खड़े थे और अपना  
 १४ अपना मुख भीतर की ओर किये हुए थे । फिर उस ने  
 बीचवाले पर्दे को नीले बैजनी और लाल रंग के सन के  
 १५ कपड़े का बनवाया और उस पर करुब कढ़वाये । और  
 भवन के साम्हने उस ने पैंतीस पैंतीस हाथ ऊंचे दो  
 खंभे बनवाये और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी सो  
 १६ पांच पांच हाथ की थी । फिर उस ने भीतरी कोठरी में  
 सांकलें बनवाकर खंभों के ऊपर लगाईं और एक सौ  
 १७ अनार भी बनवाकर सांकलों पर लटकाये । इन खंभों को  
 उस ने मन्दिर के साम्हने एक तो उस की दहिनी ओर  
 और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया और दहिने खंभे का  
 नाम थाकीन और बायें खंभे का नाम बोअज रक्खा ॥

४. फिर उस ने पीतल की एक वेदी बनाई  
 उस की लंबाई और चौड़ाई बीस

२ बीस हाथ की और ऊंचाई दस हाथ की थी । फिर उस  
 ने एक ढाला हुआ गंगाल बनवाया जो छोर से छोर लों  
 दस हाथ चौड़ा था उस का आकार गोत्र था और उस  
 की ऊंचाई पांच हाथ की थी और उस के चारों ओर का  
 ३ घेर तीस हाथ सूत का था । और उस के तले उस के  
 चारों ओर एक एक हाथ में दस दस बैलों की प्रति-  
 माएं बनी थीं जो गंगाल को घेरें थीं जब वह ढाला गया  
 ४ तब ये बैल भी दो पांति करके ढाले गये । और वह  
 बारह बने हुए बैलों पर धरा गया जिन में से तीन उत्तर  
 तीन पच्छिम तीन दक्खिन और तीन पूरब की ओर  
 मुंह किये हुए थे और इन के ऊपर गंगाल धरा था  
 ५ और उन सभों के पिछले अंग भीतरी पड़ते थे । और  
 गंगाल की मोटाई चौथा भर की थी और उस का  
 मोहड़ा कटोरे के मोहड़े की नाईं सोसन के फूलों के  
 काम से बना था और उस में तीन हजार बत भरकर  
 ६ समाता था । फिर उस ने धोने के लिये दस हादी बनवा  
 कर पांच दहिनी और पांच बाईं ओर रख दीं उन में  
 तो होमबलि की वस्तुएं धोई जाती थीं पर गंगाल याजकों  
 ७ के धोने के लिये था । फिर उस ने सोने की दस दीवट  
 विधि के अनुसार बनवाईं और पांच दहिनी और और  
 ८ पांच बाईं ओर मन्दिर में धरा दीं । फिर उस ने दस  
 मेज बनवाकर पांच दहिनी और और पांच बाईं ओर  
 मन्दिर में रखा दीं । और उस ने सोने के एक सौ  
 ९ कटोरे बनवाये । फिर उस ने याजकों के आंगन और बड़े  
 आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बना

(१) मूल में किवाड़ ।

कर उन के किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया । और उस ने १०  
 गंगाल को भवन की दहिनी ओर अर्थात् पूरब और दक्खिन  
 के कोने की ओर धरा दिया । और हूराम ने हथकों ११  
 फावड़ियों और कटोरे को बनाया । सो हूराम ने राजा  
 सुलैमान के लिये परमेश्वर के भवन में जो काम कना  
 था उसे निपटा दिया अर्थात् दो खंभे और गोलों समेत १२  
 वे कंगनियां जो खंभों के सिरो पर थीं और खंभों के सिरो  
 पर के गोलों के ढांपने को जालियों की दो दो पांति,  
 और दोनों जालियों के लिये चार सौ अनार और खंभों के १३  
 सिरो पर जो गोलें थे उन के ढांपने के एक एक जाली के  
 लिये अनारों की दो दो पांति बनाईं । फिर उस ने पाये १४  
 और पायों पर की हैदियां, एक गंगाल और उस के १५  
 नीचे के बारह बैल बनाये । फिर हथकों फावड़ियों काटों १६  
 और इन के सारे सामान को उस के चाचा हूराम ने यहोवा  
 के भवन के लिये राजा सुलैमान की आज्ञा से भलकाये  
 हुए पीतल के बनवाया । राजा ने उन को यर्दन की १७  
 तराई में अर्थात् सुकोत और सरेदा के बीच की चिकनी  
 मिट्टीवाली भूमि में ढलवाया । ये सब पात्र सुलैमान ने १८  
 बहुत ही बनवाये यहां लों कि पीतल के तौल का कुछ  
 लेखान हुआ । और सुलैमान ने परमेश्वर के भवन १९  
 के सब पात्र और सोने की वेदी और वे मेज जिन पर  
 भेंट की गेट्टी रखी जाती थी, और दीपकों समेत २०  
 चोखे सोने की दीवटें जो विधि के अनुमार भीतरी  
 कोठरी के साम्हने बरा करें, और सोने बरन निरे सोने २१  
 के फूल दीपक और चिमटे, और चोखे सोने की कैंचियां २२  
 कटोरे धूपदान और करछे बनवाये । फिर भवन के द्वार  
 और परम पवित्र स्थान के भीतरी किवाड़ और भवन  
 अर्थात् मन्दिर केवाड़ सोने के बने ॥

५. निदान जो जो काम सुलैमान ने यहोवा के १  
 भवन के लिये बनवाया सो सब निपट गया । तब  
 सुलैमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किये हुए सोने  
 चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के  
 भवन के भण्डारों में रखा दिया ॥

(मन्दिर की प्रतिष्ठा)

तब सुलैमान ने इस्राएल के पुरनियों को और गोत्रों २  
 के सब मुख्य पुरुष जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के  
 प्रधान थे उन को भी यरुशलेम में इस मनसा से इकट्ठा  
 किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से ३  
 अर्थात् सिथ्योन से ऊपर लिवा ले आएँ । सो सब इस्रा-  
 एली पुरुष सातवें महीने के पर्व के समय राजा के पास ४  
 इकट्ठे हुए । जब इस्राएल के सब पुरनिये आये तब ५  
 लेबीयों ने संदूक को उठा लिया । और संदूक और ५

मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे  
 ६ उन सभी को लेवीय याजक ऊपर ले गये। और राजा  
 सुलैमान और सारी इस्राएली मण्डली के लोग जो उस  
 के पास इकट्ठे हुए थे उन्होंने ने संदूक के साम्हने इतनी  
 मेड़ और बैल बलि किये जिन की गिनती और लेखा  
 ७ बहुतायत के कारण न हो सकता था। तब याजकों ने  
 यहोवा की वाचा का संदूक उस के स्थान में अर्थात्  
 भवन की भीतरी कोठरी में जो परमपवित्र स्थान है  
 ८ पहुँचाकर करुबों के पंखों के तले रख दिया। करुब तो  
 संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाये हुए थे कि वे  
 ९ ऊपर से संदूक और उस के डण्डों को ढाँपे थे। डण्डे तो  
 ऐसे लंबे थे कि उन के सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी  
 कोठरी के साम्हने देख पड़ते थे पर बाहर से तो वे  
 देख न पड़ते थे। वे आज के दिन लौ बहीं हैं।  
 १० संदूक में पत्थर की उन दौ पट्टियाँ की छोड़ कुछ  
 न था जिन्हें मूसा ने होरेब में उस के भीतर उस समय  
 रक्खा जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने  
 ११ के पीछे उन के साथ वाचा बांधी थी। जब याजक  
 पवित्रस्थान से निकले (जितने याजक हाजिर थे उन  
 सभी में तो अपने अपने की पवित्र किया था और अलग  
 १२ अलग दलों में होकर सेवा न करते थे, और जितने  
 लेवीय गानेहारे थे वे अर्थात् पुत्रों और भाइयों समेत  
 आशाप हेमान और यदून सब के सब सन के बख  
 पहिने भ्रांभ सारंगियाँ और बीणाएँ लिए हुए वेदी के  
 १३ पूरब अलंग खड़े थे और उन के साथ एक सौ बीस  
 याजक तुरहियाँ बजा रहे थे), सो जब तुरहियाँ बजाने-  
 हारे और गानेहारे एक स्वर से यहोवा की स्तुति और  
 धन्यवाद करने लगे और तुरहियाँ भ्रांभ आदि बाजे  
 बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊँचे शब्द से करने लगे  
 अर्थात् वह भला है और उस की करुणा सदा की है तब  
 १४ यहोवा के भवन में बादल भर आया, और बादल के कारण  
 याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके क्योंकि  
 यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था ॥

६. तब सुलैमान कहने लगा यहोवा ने कहा  
 था कि मैं धीरे अधकार में बास किये

१ रहूँगा। पर मैं ने तेरे लिये एक वासस्थान बन  
 ऐसा इष्ट स्थान बनाया है जिस में तू युग युग रहे।  
 २ और राजा ने इस्राएल की सारी सभा की ओर मुँह  
 फेरकर उस को आशीर्वाद दिया और इस्राएल की  
 ४ सारी सभा खड़ी रही। और उस ने कहा धन्य है इस्रा-  
 एल का परमेश्वर यहोवा जिस ने अपने मुँह से मेरे  
 पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों

से इसे पूरा किया है कि, जिस दिन से मैं अपनी प्रजा ५  
 को मिस्र देश से निकाल लाया तब से मैं ने न तो  
 इस्राएल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिस में मेरे  
 नाम के निवास के लिये भवन बनाया जाए और न कोई  
 मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो,  
 पर मैं ने यरूशलेम को इसलिये चुना है कि मेरा नाम ६  
 वहाँ हो और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी  
 प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की ७  
 यह मनसा तो थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के  
 नाम का एक भवन बनाऊँ। पर यहोवा ने मेरे पिता ८  
 दाऊद से कहा यह जो तेरी मनसा है कि यहोवा के नाम  
 का एक भवन बनाऊँ ऐसी मनसा करके तू ने भला  
 किया। तौभी तू उस भवन को न बनाएगा। तेरा जो ९  
 निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह १०  
 जो वचन यहोवा ने कहा था उसे उस ने पूरा भी किया  
 है और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा  
 के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजता हूँ  
 और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन  
 को बनाया है। और इस में मैं ने उस संदूक को रक्ख ११  
 दिया है जिस में यहोवा की वह वाचा है जो उस ने  
 इस्राएलियों से बांधी थी ॥

तब वह इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा १२  
 की वेदी के साम्हने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाये।  
 सुलैमान ने तो पाँच हाथ लंबी पाँच हाथ चौड़ी और १३  
 तीन हाथ ऊँची पीतल की एक चौकी बनाकर आगन के  
 बीच रक्खाई थी सो उस पर उस ने खड़ा हो इस्राएल की  
 सारी सभा के देखते घुटने टेककर स्वर्ग की ओर हाथ  
 फैलाये हुए कहा, हे यहोवा हे इस्राएल के परमेश्वर तेरे १४  
 समान न तो स्वर्ग में और न पृथिवी पर कोई ईश्वर है  
 तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख  
 जानकर<sup>१</sup> चलते हैं उन के लिए तू अपनी वाचा पालता  
 और करुणा करता रहता है। जो वचन तू ने मेरे पिता १५  
 दाऊद को दिया था उस का तू ने पालन किया है जैसा  
 तू ने अपने मुँह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से  
 उस को हमारी आँखों के साम्हने<sup>२</sup> पूरा किया है। सो १६  
 अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा इस वचन को भी  
 पूरा कर जो तू ने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया  
 था कि तेरे कुल में मेरे साम्हने इस्राएल की गद्दी पर विरा-  
 जनेहारे सदा बने रहेंगे इतना हो कि जैसे तू अपने को  
 मेरे सन्मुख जानकर<sup>१</sup> चलता रहा वैसे ही तेरे बँस के  
 लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करें कि मेरी

(१) मूल में तेरे साम्हने। (२) मूल में आज के दिन की नाह।

१७ व्यवस्था पर चले । सो अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा अपना जो वचन तू ने अपने दास दाऊद को  
 १८ दिया था वह सच्चा किया जाए । परन्तु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथिवी पर वास करेगा स्वर्ग में बरन सब से ऊँचे स्वर्ग में भी तू नहीं समता फिर मेरे  
 १९ बनाये हुए इस भवन में तू क्योंकर समाएगा । तौभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़-गिड़-हट की ओर फिरके मेरी पुकार और यह प्रार्थना  
 २० सुन जो मैं तेरे साम्हने कर रहा हूँ । वह यह है तेरी आँखें इस भवन की ओर अर्थात् इसी स्थान की ओर जिस के विषय तू ने कहा है कि मैं उस में अपना नाम रक्खूंगा रात दिन खुली रहें और जो प्रार्थना तेरा दास इस  
 २१ स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले । और अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिस को वे इस स्थान की ओर मुँह किये हुए गिड़गिड़ाकर करें उसे सुनना स्वर्ग में से जो तेरा निवासस्थान है सुन लेना  
 २२ और सुनकर क्षमा करना । जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उस को किरिया खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के साम्हने किरिया खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उस की चाल उसी के सिर लौटा देना और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर  
 २४ उस के धर्म के अनुसार उस को फल देना । फिर यदि तेरा प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझ से प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट  
 २५ करें, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तू ने उन को और उन के पुरखाओं को दिया है ।  
 २६ जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश ऐसा बन्द हो जाए कि वर्षा न हो ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को मानें और तू जो उन्हें  
 २७ दुःख देता है इस कारण अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना तू जो उन को वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिये इसलिये अपने इस देश पर जिसे तू ने अपनी प्रजा का भाग कर  
 २८ दिया है पानी बरसा देना । जब इस देश में काल वा मरी वा भुलस हो वा गेरुई वा टिड्डियां वा कीड़े लगें वा उन के शत्रु उन के देश के फाटकों में उन्हें घेर रक्खें  
 २९ कोई विपत्ति वा रोग क्यों न हो, तब यदि कोई मनुष्य वा तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो अपना अपना दुःख और

अपना अपना खेद जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो ३० तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उस की चाल के अनुसार उसे फल देना तू ही तो आदमियों के मन की जाननेहारा है, कि वे जितने दिन इस देश में रहें जो तू ३१ ने उन के पुरखाओं को दिया था उतने दिन लो तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते रहें । फिर परदेशी भी ३२ जो तेरी प्रजा इस्राएल का न हो जब वह तेरे बड़े नाम और बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई बांह के कारण दूर देश से आए जब वे आकर इस भवन की ओर मुँह किये हुए प्रार्थना करें, तब तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में ३३ से सुने और जिस बात के लिये ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उस के अनुसार करना जिस से पृथिवी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल की नाईं तेरा भय मानें और निश्चय करें कि यह भवन जो मैं ने बनाया है सो तेरा ही कहलाता है । जब तेरी प्रजा के ३४ लोग जहाँ कहीं तू उन्हें भेजे वहाँ अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए और इस नगर की ओर जिसे तू ने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैं ने तेरे नाम का बनाया है मुँह किये हुए तुझ से प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग ३५ में से उन की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुने और उन का न्याय करे । निष्पत्ति तो कोई मनुष्य नहीं है सो यदि वे ३६ भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंधुआ करके किसी देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाएँ, तो यदि ३७ वे बंधुआई के देश में सौच विचार करें और फिरकर अपनी बंधुआई करनेहारों के देश में तुझ से गिड़गिड़ाकर कहें कि हम ने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहाँ वे उन्हें ३८ बंधुआ करके ले गये हों अपने सारे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तू ने उन के पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तू ने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैं ने तेरे नाम का बनाया है मुँह किये हुए तुझ से प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से उन की ३९ प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुने और उन का न्याय करे और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना । और हे मेरे परमेश्वर जो प्रार्थना इस स्थान ४० में की जाए उस की ओर अपनी आँखें खोले और अपने कान लगाये रख । अब हे यहोवा परमेश्वर उठकर अपने ४१ सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विभामस्थान में आ हे यहोवा



परमेश्वर तेरे याजक उदाररूपी बन्न पहिने रहें और तेरे  
४२ मन्त्र लोग भलाई के कारण आनन्द करते रहें । हे यहोवा  
परमेश्वर अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को सुनी अनसुनी  
न कर<sup>१</sup> तू अपने दास दाऊद पर की कृपा के काम  
स्मरण रख ॥

### ७. जब सुलैमान यह प्रार्थना कर चुका तब

स्वर्ग से आग ने गिरकर होमबलियों  
और और बलियों को मसम किया और यहोवा का तेज  
२ भवन में भर आया । और याजक यहोब के भवन में  
प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन  
३ में भर गया था । और जब आग गिरी और यहोवा का  
तेज भवन पर छा गया तब सब इस्त्राएली देखते रहे और  
फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि पर किये हुए  
दण्डवत् की ओर यों कहकर यहोवा का धन्यवाद किया  
४ कि वह भला है उस की कृपा सदा की है । तब सारी  
५ प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढाये । और राजा  
सुलैमान ने बाईस हजार बैल और एक लाख बीस हजार  
मेड़ बकरियां चढाई<sup>२</sup> यों सारी प्रजा समेत राजा ने यहोवा  
६ के भवन की प्रतिष्ठा की । और याजक अपना अपना  
कार्य करने को खड़े रहे और लेवीय भी यहोवा के वे  
गीत के बाजे लिये हुए खड़े थे जिन्हें दाऊद राजा ने  
यहोवा की सदा की कृपा के कारण उस का धन्यवाद  
करने को बनाकर उन के द्वारा स्तुति कराई थी और इन  
के साम्हने याजक लोग तुरदियां बजाते रहे और सरे  
७ इस्त्राएली खड़े रहे । फिर सुलैमान ने यहोवा के भवन के  
साम्हने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होमबलि  
और मेलबलियों की चर्ची वहीं चढाई क्योंकि सुलैमान की  
बनाई हुई पीतल की वेदी होमबलि और अन्नबलि और  
८ चर्ची के लिये छोटी थी । उसी समय सुलैमान ने और  
उस के संग हम्रात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक  
के सारे इस्त्राएल की एक बहुत बड़ी सभा ने सात दिन  
९ लों पर्व को माना । और आठवें दिन को उन्हों ने महा-  
सभा की उन्हों ने वेदी की प्रतिष्ठा सात दिन की और  
१० पर्व की भी सात दिन माना । निदान सातवें महीने के  
तेईसवें दिन को उस ने प्रजा के लोगों को बिदा किया  
कि वे अपने अपने डेरे को जाएं और वे उस भलाई के  
कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलैमान और अपनी  
प्रजा इस्त्राएल पर की थी आनन्दित थे ॥

११ यों सुलैमान यहोवा के भवन और राजभवन को  
बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में  
जो कुछ उस ने बनाना चाहा उस में उस का मनोरथ

(१) मूल में अपने अभिषिक्त का मुख न कर दे ।

पूरा हुआ । तब यहोवा ने रात में उस को दर्शन देकर १२  
उस से कहा मैं ने तेरा प्रार्थना सुनी और इस स्थान को  
यस के भवन के लिये अपनाया है । यदि मैं आकाश को १३  
ऐसा बन्द करूं कि वर्षा न हो वा टिड्डियों को देश  
उजाड़ने की आशा दू वा अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं,  
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन १४  
होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी  
सुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग से सुनकर उन का पाप  
क्षमा करूंगा और उन के देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा ।  
अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर १५  
मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे । और अब १६  
मैं ने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि  
मेरा नाम सदा लों इस में बना रहे मेरी आंखें और मेरा  
मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे । और यदि तू अपने १७  
पिता दाऊद की नाई<sup>३</sup> अपने को मेरे सम्मुख जानकर<sup>४</sup>  
चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे  
और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं १८  
तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा जैसे कि मैं ने तेरे पिता  
दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इस्त्राएल  
पर प्रभुता करनेहारा सदा बना रहेगा । पर यदि तू १९  
लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं  
ने तुम को दी है त्यागो और जाकर पराये देवताओं की  
उपासना और उन्हें दण्डवत् करो, तो मैं उन को अपने २०  
देश में से जो मैं ने उन को दिया है जड़ से उखाड़ूंगा  
और इस भवन को जो मैं ने अपने नाम के लिये पवित्र  
किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा और ऐसा करूंगा  
कि देश देश के लोगों के बीच उस की उपमा और नाम-  
धराई चलेगी । और यह भवन जो इतना ऊंचा है उस २१  
के पास से आने जानेहारे चकित होकर पूछेंगे यहोवा ने  
इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है । तब २२  
लोग कहेंगे कि उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर  
यहोवा को जो उन को मिस्र देश से निकाल लाया था  
त्यागकर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें  
दण्डवत् और उन की उपासना की इस कारण उस ने  
यह सारी विपत्ति उन पर डाली है ॥

(सुलैमान का मांति मांति का चरित्र)

### ८. सुलैमान को तो यहोवा के भवन और अपने

भवन के बनाने में बीस बरस  
लगे, तब जो नगर हूराम ने सुलैमान को दिये उन्हें २  
सुलैमान ने दृढ़ करके उन में इस्त्राएलियों को बसाया ॥  
तब सुलैमान सोबा के हम्रात को जाकर उस पर ३

(२) मूल में मेरे साम्हने ।

- ४ जयवन्त हुआ । और उस ने तदमेर को जो जंगल में  
 ५ है और हमत के सब भण्डारनगरों को हड़ किया । फिर  
 उस ने उपरले और निचले दोनो बेथेरोन को शहरपनाह  
 ६ फाटकों और बँडों से हड़ किया । और बालात और सुलै-  
 मान के जितने भण्डारनगर थे और उस के रथों और  
 सगरो के जितने नगर थे उन को और जो कुछ सुलैमान  
 ने यरूशलेम लगानेन और अपने राज्य के सारे देश में  
 ७ बनाना चाहा उस सब को उस ने बनाया । हिकियों एमो-  
 रियों परिजियों हिठियों और यबूसियों के बचे हुए लोग  
 ८ जो इस्राएल के न थे, उन के वंश जो उन के पीछे देश  
 में रह गये और उन का इस्राएलियों ने अन्त न किया  
 था उन में से तो कितनों को सुलैमान ने बेगार में रक्खा  
 ९ और आज लों उन की वही दशा है । पर इस्राएलियों में  
 से सुलैमान ने अपने काम के लिये किसी को दास न  
 बनाया वे तो यौडा और उस के हाकिम उस के सरदार  
 १० और उस के रथों और सवारों के प्रधान हुए । और सुलै-  
 मान के सरदारों के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता  
 ११ करनेहारे थे सो अदाई सौ थे । फिर सुलैमान फिरान की  
 बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उस  
 ने उस के लिये बनाया था उस ने तो कहा कि जिस जिस  
 स्थान में यहोवा का संदूक आया है वे पवित्र हैं सो मेरी  
 रानी इस्राएल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी ॥  
 १२ तब सुलैमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उस  
 ने आंसारे के आग बनाई थी यहोवा को होमबलि  
 १३ चढ़ाया । वह मूस की आशा के आर दिन दिन के  
 प्रयोजन के अनुसार अर्थात् विश्राम और नये चांद के  
 दिनों में और अखमीरा रोटी के पर्व और अठवारों के  
 पर्व और भोपड़ियों के पर्व बरस दिन के इन तीनों  
 १४ नियत समयों में बलि चढ़ाया करता था । और उस ने  
 अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों की  
 सेवकाई के लिये उन के दल ठहराये और लेवीयों को  
 उन के कामों पर ठहराया कि दिन दिन के प्रयोजन के  
 अनुसार वे यहोवा को स्तुति और याजकों के साम्हने सेवा  
 टहल किया करें और एक एक फाटक के पास डेवढीदारों  
 का दल दल करके ठहरा दिया क्योंकि परमेश्वर के  
 १५ जन दाऊद ने ऐसी आशा दी थी । और राजा ने  
 भण्डारों वा किसी और बात में याजकों और लेवीयों के  
 लिये जो जो आशा दी थी उस को उन्होंने न टाला ।  
 १६ और सुलैमान का सब काम जो उस ने यहोवा के भवन  
 की नेव डालने से ले उस के पूरा करने लों किया सो  
 ठीक किया गया । निदान यहोवा का भवन पूरा हुआ ॥  
 १७ तब सुलैमान एस्थोनगेबर और एलौत को गया जो

एदोम के देश में समुद्र के तीर हैं । और हूराम ने उस १८  
 के पास अपने जहाजियों के द्वारा जहाज और समुद्र के  
 जानकार मझाह मेज दिये और उन्हीं ने सुलैमान के  
 जहाजियों के संग ओगीर को जाकर वहां से साढ़े चार सौ  
 किकार सोना राजा सुलैमान को ला दिया ॥

(शबा की रानी का सुलैमान का दर्शन करना)

## ९. जब शबा की रानी ने सुलैमान की कीर्त्ति

सुनी तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से  
 उस की परीक्षा करने के लिये यरूशलेम को चली । वह  
 लो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और  
 मणि से लदे उंट साथ लिये हुए आई और सुलैमान के  
 पास पहुँचकर अपने मन की सारी बातों के विषय उस  
 से बातें करने लगी । सुलैमान ने उस के सब प्रश्नों का २  
 उत्तर दिया कोई बात सुलैमान की बुद्धि से ऐसी याहर  
 न रही कि वह उसे न बता सका । जब शबा की रानी ३  
 ने सुलैमान की बुद्धिमानी और उस का बनाया हुआ  
 भवन, और उस की मेज पर का भोजन देखा और उस ४  
 के कर्मचारी किस रीति बैठते और उस के टहलुए किस  
 रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहिने रहते हैं और  
 उस के पिलानेहारे कैसे हैं और वे भी कैसे कपड़े पहिने  
 हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिस से वह यहोवा के भवन  
 को जाया करता है यह सब जब उस ने देखा तब वह  
 चकित हो गई । सो उस ने राजा से कहा तेरे कामों ५  
 और बुद्धिमानी की जो कीर्त्ति मैं ने अपने देश में सुनी  
 सं सच ही है । पर जब लों मैं ने आप ही आकर अपनी ६  
 आंखों से यह न देखा तब लों मैं ने उन की प्रतीति न  
 की पर तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी मुझे न बताई  
 गई थी तू उस कीर्त्ति से बढ़कर है जो मैं ने सुनी थी ।  
 धन्य हैं तेरे जन धन्य हैं तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे ७  
 सन्मुख हाजिर रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं ।  
 धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझ से ऐसा प्रसन्न ८  
 हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिये विराजमान  
 किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य  
 करे तेरा परमेश्वर जो इस्राएल से प्रेम करके उन्हें सदा  
 के लिये स्थिर करने चाहता था इसी कारण उस ने  
 तुझे न्याय और धर्म करने को उन का राजा कर दिया ।  
 और उस ने राजा को एक सौ बीस किकार सोना बहुत ९  
 सा सुगन्धद्रव्य और मणि दिये जैसे सुगन्धद्रव्य शबा  
 की रानी ने राजा सुलैमान को दिये वैसे देखने में नहीं  
 आये । फिर हूराम और सुलैमान दोनों के जहाजी जो १०  
 ओपीर से सोना लाते थे सो चन्दन की लकड़ी और

(१) मूल में कोई बात सुलैमान से न छिपी ।

११ मणि ली लाते थे । और राजा ने चन्दन की लकड़ी से यहोश के भवन और राजभवन के लिये चबूतरे और गानेहारों के लिये बीणाएँ और सारंगियाँ बनाईं ऐसी वस्तुएँ  
१२ उस से पहिले यहूदा देश में न देख पड़ी थीं । और शबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलैमान ने उस को उस की इच्छा के अनुसार दिया यह उस के सिवाय था जो वह राजा के पास ले आई थी तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई ॥

(सुलैमान का माहात्म्य और मृत्यु)

१३ जो सोना बरस दिन में सुलैमान के पास पहुँचा करता था उस का तील छः सौ छियासठ किंकार था ।  
१४ यह उस से अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति  
१५ भी सुलैमान के पास सोना चान्दी लाते थे । और राजा सुलैमान ने सोना गढ़ाकर दो सौ बड़ी बड़ी ढालें बनाई एक एक ढाल में छः छः सौ शेरकेल गढ़ा हुआ सोना  
१६ लगा । फिर उस ने सोना गढ़ाकर तीन सौ फरियाँ भी बनाई एक एक छोटी ढाल में तीन सौ शेरकेल सोना लगा और राजा ने उन को लबानोनी बन नाम भवन में रखा  
१७ दिया । और राजा ने हाथीदाँत का एक बड़ा सिंहासन बनाया और चौखे सोने से मढ़ाया । उस सिंहासन में छः सीढ़ियाँ और सोने का एक पावदान था ये सब सिंहासन से जुड़े थे और बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना  
१९ था । और छहों सीढ़ियों की दोनों अलंग एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था सो बारह हुए किसी राज्य में ऐसा कभी न बना । और राजा सुलैमान के पीने के सब पात्र सोने के थे और लबानोनी बन नाम भवन के सब पात्र भी चौखे सोने के थे सुलैमान के दिनों में चाँदी का कुछ  
२१ लेखा न था । क्योंकि हूराम के जहाजियों के संग राजा के तर्शाश की जानेवाले जहाज थे और तीन तीन बरस के पीछे वे तर्शाश के जहाज सोना चाँदी हाथीदाँत बन्दर और  
२२ मार ले आते थे । सो राजा सुलैमान धन और बुद्धि में २३ पृथिवी के सब राजाओं से बढ़ कर हो गया । और पृथिवी के सब राजा सुलैमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उस के मन में उतजाई थी उस का दर्शन  
२४ करने चाहते थे । और वे बरस बरस अपनी अपनी मेंट अर्थात् चाँदी और सोने के पात्र वस्त्र शस्त्र सुगन्धद्रव्य  
२५ बोड़े और खम्बर ले आते थे । और अपने बोड़ों और रथों के लिये सुलैमान के चार हजार थान और बारह हजार सवार भी थे जिन को उस ने रथों के नगरे में और यरूश-  
२६ लेम में राजा के पास ठहरा रखा । और वह मदानद से

ले पलिशियों के देश और मिस्र के सिवाने लों के सब राजाओं पर प्रभुता करता था । और राजा ने ऐसा किया २७ कि यरूशलेम में चाँदी का लेखा पत्थरों का और देवदार का लेखा बहुतायत के कारण नीचे के देश के गूलरों का सा हो गया । और लोग मिस्र से और और सब देशों से २८ सुलैमान के लिये बोड़े लाते थे ॥

आदि से अन्त लों सुलैमान के और सारे काम क्या २९ नातान नबी की पुस्तक में और शीलोवासी अहिव्याह की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय इहो दर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं । सुलैमान ने यरूशलेम में सारे इस्राएल पर चाँदीस ३० बरस लों राज्य किया । और सुलैमान अपने पुत्राओं ३१ के संग सोया और उस को उस के पिता दाऊद के पुर में मिट्टी दी गई और उस का पुत्र रहबाम उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(इस्राएल के राज्य का दो भाग हो जाना)

१०. रहबाम तो शकैम को गया क्योंकि

सारा इस्राएल उस को राजा करने के लिये वहीं गया था । और नबात के पुत्र यारो- २ बाम ने यह सुना (वह तो मिस्र में रहता था जहाँ वह सुलैमान राजा के डर के मारे भाग गया था) सो यारोबाम मिस्र से लौट आया । तब उन्होंने ने उस को ३ बुलवा भेजा सो यारोबाम और सब इस्राएली आकर रहबाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर ४ भारी जूआ ढाल रक्खा था सो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा की और उस भारी जूए को जो उस ने हम पर ढाल रक्खा है कुछ हलका कर तब हम तेरे अधीन ५ रहेंगे । उस ने उन से कहा तीन दिन के पीछे मेरे पास फिर आना सो वे चले गये । तब राजा रहबाम ने उन ६ बूढ़ों से जो उस के पिता सुलैमान के जीवन भर उस के साम्हने हाजिर रहा करते थे यह कह कर सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है ? इस में तुम ७ क्या सम्मति देते हो ? उन्होंने ने उस को यह उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके ८ उन्हें प्रसन्न करे और उन से मधुर बातें कहे तो वे सदा लों तेरे अधीन बने रहेंगे । पर उस ने उस सम्मति को ९ छोड़ा जो बूढ़ों ने उस को दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उस के संग बड़े हुए थे और उस के सम्मुख हाजिर रहा करते थे । उन से उस ने पूछा मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूँ इस में तुम क्या सम्मति देते हो ? उन्होंने ने तो मुझ से कहा है कि जो जूआ तेरे पिता ने हम पर

(१) मूल में के बचनों ।

- १० डाल रक्खा है उसे तू हलका कर । जवानों ने जो उस के संभ बड़े हुए थे उस को यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझ से कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जूआ भारी किया था पर तू उसे हमारे लिये हलका कर तू उन से यों कहना कि मेरी छिगुलिया मेरे पिता की कटि से ११ भी मोटी ठहरेगी । मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जूआ रक्खा था उसे मैं और भी भारी करूंगा मेरा पिता तो तुम को कोड़ों से ताड़ना देता था पर मैं बिच्छुओं से १२ दूंगा । तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना वैसे ही यारोबाम और सारी १३ प्रजा रहबाम के पास हाजिर हुई । तब राजा ने उन से कड़ी बातें की और रहबाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति १४ छोड़कर, जवानों की सम्मति के अनुसार उन से कहा मेरे पिता ने तो तुम्हारा जूआ भारी कर दिया पर मैं उसे और भी भारी कर दूंगा मेरे पिता ने तो तुम को कोड़ों १५ से ताड़ना दी पर मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा । सो राजा ने प्रजा की न मानी इस का कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अबिय्याह के द्वारा नचात के पुत्र यारोबाम से कहा था उस को पूरा करने के लिये परमेश्वर १६ ने ऐसा ही ठहराया था । जब सारे इस्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं मुनता तब वे बोने कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश हमारा तो यिशी के पुत्र में कोई भाग नहीं है हे इस्राएलियो अपने अपने डेरे को चले जाओ अब हे दाऊद अपने ही घराने की चिन्ता कर । १७ सो सारे इस्राएली अपने अपने डेरे को चले गये । केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे उन पर १८ तो रहबाम राज्य करता रहा । तब राजा रहबाम ने हदोराम को जो सब बेगारों पर अधिकारी था मेज दिया और इस्राएलियों ने उस को पत्थरबाह किया और वह मर गया सो रहबाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया । सो इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज लो फिरा हुआ है ॥

(रहबाम का राज्य)

## ११. जब रहबाम यरूशलेम को आया तब

- उस ने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को जो मिलकर एक लाख अस्सी हजार अच्छे घोडा थे इकट्ठा किया कि इस्राएल के साथ लड़ने से १ राज्य रहबाम के वंश में फिर आए । तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के जन शमायाह के पास पहुंचा कि, २ यहूदा के राजा सुलैमान के पुत्र रहबाम से और यहूदा

- और बिन्यामीन में के सब इस्राएलियों से कह, यहोवा ४ यों कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो तुम अपने अपने घर लौट जाओ क्योंकि यह बात मेरी ही और से हुई है । यहोवा के ये वचन मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किये लौट गये । तब रहबाम ५ यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिये ये नगर बह किये, अर्थात् बेतनेहेम एताम तक, ६ बेत्सूर सोका अबुल्लाम, गत मारेशा जीप, अदोरैम ७, ८ लाकीश अजेका, सारा अथालोन और हेब्रोन ये यहूदा ९, १० और बिन्यामीन में बह नगर हैं । और उस ने बह नगरों ११ को और भी बह करके उन में प्रधान ठहराये और भोज वस्तु और तेल दाखमधु के भण्डार रखा दिये । फिर १२ एक एक नगर में उस ने ढालें और भाते रखवाकर उन को अत्यन्त बह कर दिया । यहूदा और बिन्यामीन तो उस के थे । और सारे इस्राएल में के याजक और लेवीय भी १३ अपने सारे देश से उठकर उस के पास गये । यों लेवीय १४ अरनी चराइया और मिज भूमि छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आये क्योंकि यारोबाम और उस के पुत्रों ने उन को निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिये याजक का काम न करें । और उस ने ऊँचे स्थानों और बकरो १५ और अपने बनाये हुए बछड़ों के लिये अपनी और से याजक ठहरा लिये थे । और लेवीयों के पीछे इस्राएल के १६ सब गोत्रों में से जितने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के खोजी होने के मन लगाते थे वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के बलि चढ़ाने के लिये यरूशलेम को आये । और उन्होंने ने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलैमान १७ के पुत्र रहबाम के तीन बरस लो बह कराया क्योंकि तीन बरस लो वे दाऊद और सुलैमान की लीक पर चलते रहे । और रहबाम ने एक स्त्री का ब्याह लिया अर्थात् महलत १८ को जिस का पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता यिशी के पुत्र एलीआब की बेटी अभीहैल थी । वह उस के जन्माये १९ यूश शमर्याह और जाहम नाम पुत्र जनी । और उस के २० पीछे उस ने अबशालोम की नतिनी माका को ब्याह लिया और वह उस के जन्माये अबिय्याह अत्ते जीज और शलोमीत की जनी । रहबाम ने अठारह रानियां तो ब्याह २१ की और साठ रखेलियां रक्खीं और अठारह बेटे और साठ बेटियां जन्माईं पर अबशालोम की नतिनी माका से वह अपनी सारी रानियां और रखेलियों से अधिक प्रेम रखता था । सो रहबाम ने माका के बेटे अबिय्याह को २२ मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस मनसा से ठहरा दिया कि उसे राजा करे । और वह समझ भूझकर काम करता २३ था और उस ने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके

(१) मूल में राजा को उत्तर दिया ।

यहूदा और बिन्यामोन के सारे देशों के सब गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दी और उन के लिये बहुत सी स्त्रियाँ दूढ़ी ॥

१२. परन्तु जब रहबाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया तब उस ने और उस के साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को स्थाग दिया । उन्होंने ने जो यहोवा से विश्वासघात किया इस कारण राजा रहबाम के पांचवें बरस में मिस्र के राजा शीशक ने, बारह सौ रथ और साठ हजार सवार लिये हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की और जो लोग उस के संग मिस्र से आये अर्थात् लूथी, सुकियथी, कुरथी, सो अनगिनित थे । और उस ने यहूदा के गढ़वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया । तब शमायाह नबी रहबाम और यहूदा के हाकिमों के पास जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे आकर कहने लगा यहोवा यों कहता है कि तुम ने मुझ को छोड़ दिया है सो मैं ने तुम को छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है । तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गये और कहा यहोवा धर्मी है ।
१३. जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं तब यहोवा का यह बचन शमायाह के पास पहुँचा कि वे दीन हो गये हैं मैं उन को नाश न करूँगा मैं उन का कुल बचाव करूँगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी । वे उस के अधीन तो रहेंगे इसलिये कि वे मेरी सेवा जान लें और देश देश के राज्यों की भी सेवा जान लें । सो मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल अनमोल वस्तुएँ और राजभवन की अनमोल वस्तुएँ उठा ले गया । वह सब की सब को उठा ले गया और सोने की जो फरियाँ सुलैमान ने बनाई थीं उन को भी वह ले गया । सो राजा रहबाम ने उन के बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरेदारों के प्रधानों के हाथ सौंप दिया जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे । और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता तब तब पहरेदार आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरेदारों की कोठरी में लौटाकर रख देते थे । जब रहबाम दीन हुआ तब यहोवा का कोप उस पर से उतर गया और उस ने उस का पूरा विनाश न किया फिर यहूदा में बाँटे अर्थात् हुई । सो राजा रहबाम यरूशलेम में दृढ़ हो राज्य करता रहा । जब रहबाम राज्य करने लगा तब एकतालीस बरस का था और यरूशलेम में अर्थात् उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाये रखने के लिये इस्राएल के सारे

गोशों में से चुन लिया था तब बरस लो राज्य करता रहा । उस की माता का नाम नामा था जो अम्मोनी की थी । उस ने वह किया जो बुरा है अर्थात् उस ने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया । यदि से अन्त लो रहबाम के काम क्या शमायाह नबी और इहो दर्थी की पुस्तकों में बंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं । रहबाम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही । और रहबाम अपने पुरखों के संग सोया और दाऊदपुर में उस को मिट्टी दी गई । और उस का पुत्र अबिय्याह उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(अबिय्याह का राज्य)

### १३. यारोबाम के अठारहवें बरस में अबिय्याह यहूदा पर राज्य करने

लगा । वह तीन बरस लो यरूशलेम में राज्य करता रहा और उस की माता का नाम मीकायाह था जो गिबागासी ऊरीएल की बेटी थी । और अबिय्याह और यारोबाम के बीच लड़ाई हुई । सो अबिय्याह ने तो बड़े बड़े योद्धाओं का दल अर्थात् चार लाख छांटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिये पाति बन्धाई और यारोबाम ने आठ लाख छांटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उस के विरुद्ध पाति बन्धाई । तब अबिय्याह समारैम नाम पहाड़ पर जो एप्रीम के पहाड़ी देश में है खड़ा होकर कहने लगा हे यारोबाम हे सब इस्राएलियो मेरी सुनो । क्या तुम को न जानना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने लौनवाली बाँधा बंधकर दाऊद को और उस के वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिये दे दिया है । तौभी नबात का पुत्र यारोबाम जो दाऊद के पुत्र सुलैमान का कर्मचारी था सो अपने स्वामी के विरुद्ध उठा । और उस के पास हलके और ओछे मनुष्य बटुर गये और जब सुलैमान का पुत्र रहबाम लड़का और अलहदु मन का था और उन का साम्हना न कर सकता था, तब वे उस के विरुद्ध सामर्थी हो गये । और अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का साम्हना करेंगे जो दाऊद की सन्तान के हाथ में है तुम मिलकर बड़ा समाज बने हो और तुम्हारे पास वे सोने के बड़के भी हैं जिन्हें यारोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिये बनवाया । क्या तुम ने यहोवा के याजकों को अर्थात् हाकल की सन्तान और लेवीयों को निकालकर देश देश के लोगों की नाई याजक ठहरा नहीं लिये, जो कोई एक बड़का और सात मेंडे अपना संस्कार करने को ले आता सो उन

- १० का राजक हो जाता है, जो ईश्वर नहीं है। पर हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हम ने उस को नहीं त्यागा और हमारे पास यहोवा की सेवा टूटल करने-हारे बाजक हाकन की सन्तान और अपने अपने काम में लगे हुए होती हैं। और वे नित्य सबेरे और सांझ को यहोवा के लिये होमबलि और सुगन्धद्रव्य का घूप जलाते हैं और शुद्ध मेष पर भेंट की रोटी खाते और सोने की दीबट और उस के दीपक सांझ सांझ को धारते हैं हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहते हैं पर तुम ने उस को त्याग दिया है।
- १२ और सुनो हमारे संम हमारा प्रधान परमेश्वर है और तुम्हारे विरुद्ध सांझ बांधकर फूंकने को तुम्हियां लिखे हुए उस के याजक भी हमारे साथ हैं। हे इस्राएलियो अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ी क्योंकि तुम
- १३ कृतार्थ न होगे। पर यारोबाम ने चातुओं को घुमाकर उन के पीछे भेज दिया। सो वे तो यहूदा के साम्हने थे
- १४ और चातु उन के पीछे थे। और जब यहूदियों ने पीछे को मुंह फेरा तो क्या इस्राएलियों ने आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई देनेवाली है तब उन्होंने ने यहोवा की दोहाई दी और याजक तुम्हियों को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जयजयकार किया और जब यहूदी पुरुषों ने जयजयकार किया तब परमेश्वर ने अबिव्याह और यहूदियों के साम्हने यारोबाम और सारे इस्राएल
- १६ को मारा। और इस्राएली यहूदा के साम्हने से भागे
- १७ और परमेश्वर ने उन्हें उन के हाथ में कर दिया। और अबिव्याह और उस की प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा यहाँ लों कि इस्राएल में से पांच लाख छूटे हुए पुरुष
- १८ मारे गये। सो उस समय इस्राएली दब गये और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने ने अपने पितरों के
- १९ परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रक्खा था। तब अबिव्याह ने यारोबाम का पीछा करके उस से बैतल यशाना और
- २० एप्रोन नगरों और उन के गांवों को लो लिया। और अबिव्याह के जीवन मरं यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ निदान यहोवा ने उस को ऐसा मारा कि वह मर गया।
- २१ पर अबिव्याह और भी सामर्थी हो गया और चौदह स्त्रियां
- २२ ब्याहकर बाइस बेटे और सोलह बेटियां जन्माईं। और अबिव्याह के और काम और उस की बाल बालन और उस के वचन इहो नबी के सिले हुए वृत्तान्त में लिखे हैं ॥

(आसा का राज्य)

१४. निदान अबिव्याह अपने पुरखाओं के संग सोया और उस को हाकरपुर में मिट्टी दी गई और उस का पुत्र आसा उस

के स्थान पर राजा हुआ। इत के दिनों में इस बरस लो देश चैन से रहा। और आसा ने बड़ी किया जो उस के परमेश्वर यहोवा की इच्छा में अच्छा और ठीक है। उस ने तो पराई वेदिओं को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाओं को तुड़वा डाला और अरोरा नाम मूर्तों को तोड़ डाला, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा की खोज करो और व्यवस्था और आज्ञा को मानो। और उस ने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और राज्य उस के साम्हने चैन से रहा। और उस ने यहूदा में गढ़वाले नगर बसाये क्योंकि देश चैन से रहा और उन बरसों में इस कारण उस की किसी से लड़ाई न हुई कि यहोवा ने उसे विभाम दिया था। उस ने यहूदियों से कहा आओ हम इन नगरों को बसाएँ और उन के चारों ओर शहरपनाह गुम्मत और काठकों के पल्ले और बेंडे बनाए देश अब लों हमारे साम्हने पड़ा है क्योंकि हम ने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है हम ने उस की खोज की और उस ने हम को चारों ओर से विभाम दिया है। सो उन्होंने ने उन नगरों को बलाया और कृतार्थ हुए। फिर आसा के पास ढाल और बर्झी रखने-हारों की एक सेना थी अर्थात् यहूदा में से तो तीन लाख पुरुष और बिन्यामीन में से फरी रखनेहारे और धनुर्धारी दो लाख अस्सी हजार ये सब शूरवीर थे। और उन के विरुद्ध दस लाख पुरुषों की सेना और तीन सौ रथ लिये हुए खेरह नाम एक कृशी निकला और मारेशा लों आ गया। तब आसा उस का साम्हना करने को चला और मारेशा के निकट सपाता नाम तराई में युद्ध की पाति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यां दोहाई दी कि हे यहोवा जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर क्योंकि हमारा भरोसा तुम्हीं पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आये हैं हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है मनुष्य तुम्ह पर प्रबल न होने पाए। तब यहोवा ने कृशियों को आसा और यहूदियों के साम्हने मारा और कृशी भाग गये। और आसा और उस के संग के लोगों ने उन का पीछा गरार तक किया और इतने कृशी मारे गये कि वे फिर सिर न उठा सकते क्योंकि वे यहोवा और उस की सेना से हार गये और यहूदी बहुत ही लूट ले गये। और उन्होंने ने गरार के पास के सब नगरों को मार लिया क्योंकि यहोवा का भय उन के रहनेहारों के मन में समा गया और उन्होंने वे

उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उन में बहुत सा धन था । फिर वे पशुशालाओं को जीत कर बहुत सी भेड़ बकरियाँ और ऊँट लूटकर यरूशलेम को लौटे ॥

- १ १५. तब परमेश्वर का आत्मा ओरेर के पुत्र अजर्थाद में समा गया । और वह आसा से भेंट करने को निकला और उस से कहा हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनी जब तू तुम यहोवा के संग रहोगे तब तू वह तुम्हारे संग रहेगा और यदि तुम उस की खोज में लगे रहो तब तू वह तुम से मिला करेगा पर यदि तुम उस को त्याग दो तू १ वह तुम को त्याग देगा । बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखानेहारे याजक के और बिना ४ व्यवस्था के रहा । पर जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उस को दुँदा तब ५ तब वह उन को मिला । उन समयों में न तो आनेहारे की कुछ शक्ति होती थी और न आनेहारे की बरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था । ६ और जाति से जाति और नगर से नगर घूर किये जाते थे क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का क्रोध देकर उन्हें ७ बरबाद देता था । पर तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढालो न पहुँचो क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा । ८ अब आसा ने ये बचन और ओवेद नबी की नबूवत सुनी तब उस ने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उस ने एश्रम के पहाड़ी देश में ले लिये थे सब चिनोनी वस्तुएं दूर कीं और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के ९ साम्हने थी उस को नये सिरे से बनाया । और उस ने सारे यहूदा और बिन्यामीन की ओर एश्रम मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उन के संग रहते थे उन को इकट्ठा किया क्योंकि वे यह देखकर कि उस का परमेश्वर यहोवा उस के संग रहता है इस्राएल में से उस के पास १० बहुत चले आये । सौ आसा के राज्य के पन्द्रहवें बरस के तीसरे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए । और ११ उसी समय उन्होंने ने उस लूट में से जो वे ले आये थे सात सौ बैल और सात हजार भेड़ बकरियाँ यहोवा को १२ बलि करके चढ़ाईं । और उन्होंने ने बाबा बांधी कि हम अपने सारे मन और सारे जीव से अपने पित्रों के १३ परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे, और क्या बड़ा क्या छोटा क्या की क्या पुरुष जो कोई इस्राएल के परमेश्वर १४ यहोवा की खोज न करे उसे मार डाला जाएगा । और उन्होंने ने जयजयकार के साथ तुरहियाँ और नरमिगे १५ बजाते हुए ऊँचे शब्द से यहोवा की किरिया खाई । और

सारे यहूदी यह किरिया खाकर आनन्दित हुए क्योंकि उन्होंने ने अपने सारे मन से किरिया खाई और बड़ी अभिरुचा से उस की दुँदा और वह उन को मिला और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विभाम दिया । बरन आस १६ राजा की माता माका जिस ने अशोरा के पास रहने को एक चिनोनी मूरत बनाई उस को उस ने राजमाता के पद से उतार दिया और आसा ने उस की मूरत काटकर पीस डाली और किद्रोन नाले में फेंक दी । ऊँचे स्थान तो १७ इस्राएलियों में से न दाये गये तीभी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा । और जो सेना चादी और १८ पात्र उस के पिता ने अर्पण किये थे और जो उस ने आप अर्पण किये थे उन को उस ने परमेश्वर के भवन में पहुँचवा दिया । और राजा आसा के राज्य के पैंतीसवें १९ बरस लौं फिर लड़ाई न हुई ॥

१६. आसा के राज्य के छत्तीसवें बरस में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा की इसलिये हड़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए । तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के २ भँडारों में से चाँदी सेना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेन्दद के पास भेज कर यह कहा कि, जैसे मेरे ३ तेरे पिता के बीच बैसै ही मेरे तेरे बीच भी बाचा बन्धे देख मैं तेरे पास चाँदी सेना भेजता हूँ सो आ इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी बाचा को तोड़ दे इसलिये कि वह मुझ पर से दूर हो । राजा आसा की यह ४ बात मानकर बेन्दद ने अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई कराकर इयोन दान आबेलमैम और नताली के सब भयदारवाले नगरों को जीत लिया । यह सुनकर बाशा ने रामा का हड़ करना छोड़ दिया और ५ अपना वह काम बन्द करा दिया । तब राजा आसा ने सारे यहूदा की साथ लिया और वे रामा के पत्थरों और लकड़ी की जिन से बासा उसे हड़ करता था उठा ले गये और उन से उस ने गोबा और मिस्पा को हड़ किया । ६ उस समय इनानी दर्शो यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा तू ने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं लगाया बरन अराम के राजा ही पर भरोसा लगाया है इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से लूट गई है । क्या कूठियों और लूठियों की सेना बड़ी ८ न थी और क्या उस में बहुत ही रथ और सवार न थे तीभी तू ने यहोवा पर भरोसा लगाया इस कारण उस ने उन को तेरे हाथ में कर दिया । देख यहोवा की दृष्टि ९ सारी पृथिवी पर इसलिये फिरती रहती है कि जिन का मन

इस की और निष्कण्ठ रहता है उन की सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाने वह काम तू ने मुझसे से किया है सो अब से तू सदाइसों में फँस रहेगा । तब आशा देशों पर विजिवावा और उसे काठ में ठोकवा दिया क्योंकि वह इस कारण उस पर क्रोधित था और उसी समय आशा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी मारा । आदि से लेकर अन्य लोगों आशा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के असांत में मिले हैं । अपने राज्य के उनतीसवें बरस में आशा को पाँव का रोग लगा और वह रोग अत्यन्त बढ़ गया तौभी उस ने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैधों ही की शरण ली । निदान आशा अपने राज्य के एकतालीसवें बरस में मरके अपने पुरखाओं के संग सोया । तब उस को उसी की कबर में जो उस ने दाऊदपुर में खुदवा ली थी मिट्टी दी गई और वह सुगंधद्रव्यों और मोषी के काम के भाँति भाँति के मशालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा दिया गया और बहुत सा सुगन्धद्रव्य उस के लिये जलाया गया ॥

(यहोशापात का राज्य)

१७. और उस का पुत्र यहोशापात उस के स्थान पर राजा हुआ और

- २ इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया । और उस ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिये और यहूदा के देश में और एशैम के उन नगरों में भी जो उस के पिता आशा ने ले लिये थे सिपाहियों की चौकियाँ बैठा दीं । और यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि वह अपने मूलपुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चाल चला और बाल देवताओं की लोज में न लगा ।
- ४ बरन वह अपने पिता के परमेश्वर ही की खोज में लगा रहता और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल के से काम न करता था । इस कारण यहोवा ने राज्य को उस के हाथ में हड़ किया और सारे यहूदी उस के पास भेंट लाया करते थे और उस के बहुत धन और विभव हो गया । और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उस का मन उमर गया फिर उस ने यहूदा में से ऊँचे स्थान और अशेर नाम मूर्तों वर कीं । और अपने राज्य के तीसरे बरस में उस ने बेन्हेल ओबद्याह अक्याह नतनेल और मीकायाह नाम अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया । और उन के साथ शमायाह नतन्याह जबद्याह असाहेल शमीरामैल यहोनतान अदीन्याह तोबियाह और तोबदीन्याह नाम

(१) युद्ध में प्रसिद्ध ।

लेवीय और उन के संग एलीशामा और यहोराम नाम याजक थे । तो उन्हों ने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक साथ लिये हुए यहूदा में शिक्षा दी बरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा की शिक्षाते हुए घूमे । और यहूदा के आस पास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्हों ने यहोशापात से युद्ध न किया । बरन कितने पलिरती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चाँदी लाये और अरबी सात हजार सात सौ मेडे और सात हजार सात सौ बकरे ले आये । और यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उस ने यहूदा में गढ़ियाँ और भयङ्कर के नगर तैयार किये । और यहूदा के नगरों में उस का बहुत काम होता था और यरूशलेम में योद्धा जो शूरवीर थे रहते थे । और इन के पितरों के बरानों के अनुसार इन की यह गिनती थी अर्थात् यहूदी सहस्रपति तो थे वे अर्थात् अदना प्रधान जिस के साथ तीन लाख शूरवीर थे । और उस के पीछे यहोहानान प्रधान जिस के साथ दो लाख अस्ती हजार पुरुष थे । और इस के पीछे जिन्की का पुत्र अमस्याह जिस ने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा की अर्पण किया था और उस के साथ दो लाख शूरवीर थे । फिर बिन्यामीन में से एख्यादा नाम एक शूरवीर जिस के संग दाल रखनेहारे दो लाख अनुचारी थे । और उस के पीछे यहोजाबाद जिस के संग युद्ध के हथियार बाँचे हुये एक लाख अस्ती हजार पुरुष थे । ये वे हैं जो राजा की सेवा में लवलीन थे और ये उन से अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया ॥

१८. यहोशापात बड़ा धनवान् और ऐश्वर्यवान् हो गया और उस ने

अहाब के साथ समझियाना किया । कुछ बरस पीछे वह शमीरैन में अहाब के पास गया तब अहाब ने उस के और उस के संगियों के लिये बहुत सी मेढ़ बकरियाँ और गाय बैल काटकर उसे गिलाद के रामैत पर चढ़ाई करने को उठकाया । और इस्राएल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा क्या तू मेरे संग गिलाद के रामैत पर चढ़ाई करेगा उस ने उसे उत्तर दिया जैसा तू बैसा मैं भी हूँ और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे । फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा आज यहोवा की आज्ञा ले । तो इस्राएल के राजा ने नवियों को जो चार सौ पुरुष थे हफ्ठा करके उन से पूछा क्या हम गिलाद के रामैत पर युद्ध करने की चढ़ाई करें या मैं बका रहूँ ? उन्हों ने उत्तर



दिया चढ़ाई कर क्योंकि परमेश्वर उस को राजा के हाथ  
 १ कर देगा । पर यहोशापात ने पूछा क्या यहां यहोवा का  
 और भी कोई नबी नहीं है जिस से हम पूछें ।  
 २ इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा हां एक पुत्र  
 और है जिस के द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं पर  
 मैं उस से बिना रखता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय कभी  
 कल्पाय की नहीं सदा हानि ही की नभूवत करता है  
 ३ वह भिस्सा का पुत्र मीकायाह है । यहोशापात ने कहा  
 ४ राजा ऐसा न करे । तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम  
 को बुलाकर कहा भिस्सा के पुत्र मीकायाह को कुर्मी  
 ५ से ले आ । इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा  
 यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहिने हुये अपने  
 अपने सिंहासन पर बैठे हुये वे वे शीमरोन के फाटक में  
 एक खुले स्थान में विराज रहे थे और सब नबी उन के  
 १० सामने नभूवत कर रहे थे । तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह  
 ने लोहे के भीम बनवाकर कहा यहोवा यों कहता  
 है कि इन से तू अराभियों को मारते मारते नाश कर  
 ११ डालेगा । और सब नबियों ने इसी आशय की नभूवत  
 कर के कहा कि गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और  
 १२ तू कृतार्थ हीए क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर  
 देगा । और जो वृत्त मीकायाह को बुलाने गया था उस  
 ने उस से कहा सुन नबी लोग एक ही मुँह से राजा  
 के विषय शुभ वचन कहते हैं तो तेरी बात उन की सी  
 १३ ही तू भी शुभ वचन कहना । मीकायाह ने कहा  
 यहोवा के जीवन की सोह जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे  
 १४ सोई मैं भी कहूँगा । जब वह राजा के पास आया तब  
 राजा ने उस से पूछा हे मीकायाह क्या हम गिलाद  
 के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें वा मैं रुका रहूँ ?  
 उस ने कहा हां तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ होओ  
 १५ और वे तुम्हारे हाथ में कर दिये जाएं । राजा ने उस  
 से कहा मुझे कितनी बार तुम्हें किरिया कराकर चिताना  
 होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझ से सच ही कह ।  
 १६ मीकायाह ने कहा मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की  
 मेड़ बकरियों की नाईं पहाड़ों पर सितर बितर देस  
 पड़ा और यहोवा का यह वचन आया कि वे तो अनाथ  
 १७ हैं तो अपने अपने घर कुशल चेम से लौट जाएं । तब  
 इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा क्या मैं ने तुझ  
 से न कहा था कि वह मेरे विषय कल्पाय की नहीं हानि  
 १८ ही की नभूवत करेगा । मीकायाह ने कहा इस कारण  
 तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनी । मुझे सिंहासन पर  
 विराजमान यहोवा और उस के दहिने बाएँ लड़ी हुई स्वर्ग  
 १९ की सारी सेना देख पड़ी । तब यहोवा ने पूछा इस्राएल के

राजा अहाव को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के  
 रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए तब किसी ने कुछ  
 और किसी ने कुछ कहा । निदान एक आत्मा पास २०  
 आकर यहोवा के सम्मुख खड़ा हुआ और कहने लगा मैं  
 उस को बहकाऊंगा यहोवा ने पूछा किस उपाय से । उस २१  
 ने कहा मैं जाकर उस के सब नबियों में बैठ के उन से झूठ  
 बुलवाऊंगा यहोवा ने कहा तेरा उस को बहकाना  
 सुफल होगा जाकर ऐसा ही कर । तो अब सुन यहोवा २२  
 ने तेरे इन नबियों के मुँह में एक झूठ बोझनेहारा आत्मा  
 पैठाया है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की कही है ।  
 तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मीकायाह के निकट २३  
 जा उस के गाल पर थपेड़ा मारके पूछा यहोवा का  
 आत्मा मुझे छोड़कर तुझ से बातें करने को किधर  
 गया । मीकायाह ने कहा जिस दिन तू छिपने के लिये २४  
 कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जानेगा । इस पर इस्रा- २५  
 एल के राजा ने कहा कि मीकायाह को नगर के हाकिम  
 आमोन और योआय राजकुमार के पास लौटाकर, उन २६  
 से कहे राजा यों कहता है कि इस को बन्दीग्रह में  
 डालो और जब लों में कुशल से न आऊँ तब लों से  
 दुःख की रोटी और पानी दिया करो । तब मीकायाह ने २७  
 कहा यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने  
 मेरे द्वारा नहीं कहा । फिर उस ने कहा हे देश देश के  
 लोगो तुम सब के सब सुन रखो ॥

तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशा- २८  
 पात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की । और २९  
 इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा मैं तो मेष बदल-  
 कर युद्ध में जाऊँगा पर तू अपने ही वस्त्र पहिने रह  
 तो इस्राएल के राजा ने मेष बदला और वे दोनों युद्ध  
 में गये । अराम के राजा ने तो अपने रथों के प्रधानों की ३०  
 आज्ञा दी थी कि न तो छोटे से लड़े न बड़े से केवल  
 इस्राएल के राजा से लड़ो । तो जब रथों के प्रधानों ने ३१  
 यहोशापात को देखा तब कहा इस्राएल का राजा वही  
 है और वे उसी से लड़ने को मुझे तो यहोशापात चिन्ता  
 उठा तब यहोवा ने उस की सहायता की और परमेश्वर  
 ने उन की उस के पास फिर जाने की प्रेरणा की । तो ३२  
 यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है रथों के  
 प्रधान उस का पीछा छोड़के लौट गये । तब किसी ने ३३  
 अटकस से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा  
 के किल्लम और निचले वस्त्र के बीच छेदकर लगा तो  
 उस ने अपने सारथी से कहा मैं पायस हुआ तो बाग<sup>२</sup>  
 फेरके मुझे सेना में से बाहर ले चल । और उस दिन ३४

(१) मूल में झूठा आत्मा हुआ । (२) मूल में अपना हाथ ।

मुद्र बढ़ता गया और इस्राएल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांक बक लड़ा पर सर्व अस्त होते वह मर गया ॥

## १९. और यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में

- १ कुशल से लौट गया । तब हनानी का पुत्र येहू नाम दर्शा यहोशापात राजा से भेंट करने को जाकर कहने लगा क्या तुम्हें की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिये इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुम्हें
- २ पर कोप भड़का है । तभी तुम्हें कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं तू ने तो देश में से अशेरों को नाश किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है ॥
- ३ सो यहोशापात यरूशलेम में रहता था और बेशेबा से ले अश्रैम के पहाड़ी देश लों अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उन को उन के पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर
- ४ फेर दिया । फिर उस ने यहूदा के एक एक गढ़वाले नगर में न्यायी ठहराया । और उस ने न्यायियों से कहा सोचो कि क्या करते हो क्योंकि तुम जो न्याय करोगे सो मनुष्य के लिये नहीं यहोवा के लिये करोगे और वह न्याय करते
- ५ समय तुम्हारे संग रहेगा । सो अब यहोवा का भय तुम में समाया रहे चौकसी से काम करना क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है और न वह किसी का
- ६ पक्ष करता न घूस लेता है । और यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवीयों और याजकों और इस्राएल के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकद्दमों के जांचने के लिये ठहराया ।
- ७ और वे यरूशलेम की लौटे । और उस ने उन को आज्ञा दी कि यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना । तुम्हारे माई जो अपने अपने नगर में रहते हैं उन में से जिस जिस का कोई मुकद्दमा तुम्हारे साम्हने आए चाहे वह खून का हो चाहे व्यवस्था वा किसी आज्ञा वा विधि वा नियम के विषय हो उन को चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी न होओ न हो कि तुम और तुम्हारे भाइयों दोनों पर उस का कोप
- ८ भड़के ऐसा करने से तुम दोषी न ठहरोगे । और सुनो यहोवा के विषय के सब मुकद्दमों में तो अमर्याद महा-याजक और राजा के विषय के सब मुकद्दमों में यहूदा के घराने का प्रधान विश्वाएल का पुत्र जमसाद तुम्हारे ऊपर ठहरा है और लेवीय तुम्हारे साम्हने सरदारों का काम करेंगे सो हिंसाव बांधकर काम करो और भले मनुष्य के संग यहोवा रहे ॥

## २०. इस के पीछे मोआबियों और अम्मोनियों ने और उन के संग कितने मूनियों

- ने मुद्र करने के लिये यहोशापात पर चढ़ाई की । तब लोगोंने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुम्हें पर चढ़ाई कर रही है और सुन वह इससोन्तामार लों जो एनगदी भी कहावता है पहुँच गई है सो यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और सारे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया । सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिये इकट्ठे हुए बरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आये । तब यहोशापात यहोवा के भवन में नये आंगन के साम्हने यहूदियों और यरूशलेमियों की मण्डली में खड़ा होकर, यह कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा साम्हना कोई नहीं कर सकता । हे हमारे परमेश्वर क्या तू ने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के साम्हने से निकालकर इसे अपने प्रेमी इब्राहीम के वंश को सदा के लिये नहीं दे दिया । सो वे इस में बस गये और इस में तेरे नाम का एक पवित्रस्थान बनाकर कहा कि, यदि तलवार वा मरी वा अकाल वा और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो हम इसी भवन के साम्हने और तेरे साम्हने (कि तेरा नाम तो इस भवन में बसा है) खड़े होकर अपने न्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा । और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तू ने इस्राएल को मित्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया और वे उन की ओर से मुद्र गये और उन को विनाश न किया, देख वे ही लोग हम को तेरे दिये हुए अधिकार के इस देश में से जिस का अधिकार तू ने हमें दिया है निकालने को आकर कैसा बदला हम को दे रहे हैं । हे हमारे परमेश्वर क्या तू उन का न्याय न करेगा यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उस के साम्हने हमारा तो बस नहीं चलता और क्या करना चाहिये यह हमें तो कुछ सूझता नहीं पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं । और सब यहूदी अपने अपने वास्तवखों लिये और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े थे । तब आसाप के वंश में से यहजीएल

नाम एक लेवीय जो जकर्याह का पुत्र बनायाह का पोता और मरुन्याह के पुत्र यीएल का परपोता था उस में १५ यहोवा का आत्मा मरुडली के बीच समाया । और वह कहने लगा हे सब यहूदियो हे यरुशलेम के रहनेवासे हे राजा यहोशापात तुम सब ध्यान दो यहोवा तुम से वां कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का १६ काम है । कल उन का साम्हना करने को जाना देखो वे सीस की चढाई पर चढ़े आते हैं और यरुएल नाम १७ जंगल के साम्हने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे । इस लफाँ में तुम्हें लड़ना न होगा हे यहूदा और हे यरुशलेम उदरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो १८ तुम्हारे संग रहेगा । तब यहोशापात मुँह भूमि की ओर करके झुका और सब यहूदियों और यरुशलेम के निवासियों ने यहोवा के साम्हने गिरके यहोवा को दण्डवत् १९ की । और कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अस्यन्त २० ऊँचे स्वर से करने लगे । बिहान को वे सबेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गये और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा हे यहूदियो हे यरुशलेम के निवासियो मेरी सुनो अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहेगी उस के नभियों की २१ प्रतीत करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे । तब प्रजा के साथ सभ्यति करके उस ने किलनों को उहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबन्दों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएँ और उस की स्तुति यह कहते हुए करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उस की २२ करुणा सदा की है । जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ २३ रहे थे धातुओं को बैठा दिया और वे मारे गये । कैसे कि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को मारने और सत्यानाश करने के लिये उन पर चढाई की और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अन्त कर चुके तब उन सभी ने एक दूसरे २४ के नाश करने में हाथ लगाया । सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुँचकर उस भीड़ की ओर इष्टि की तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ ही हैं २५ और कोई नहीं बचा । सो यहोशापात और उस की प्रजा खूट लेने को गये तो लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और

मनभावने गहने मिले वे उन्हीं ने इतने उताव लिये कि इन को न ले जा सके बरन खूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते तीन दिन बीत गये । चौथे दिन वे २६ बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा और आज लो लो पका है । तब वे अर्थात् २७ यहूदा और यरुशलेम नगर के सब पुरुष और उन के आगे आगे यहोशापात भानन्द के साथ यरुशलेम लौटने को चले क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर भानन्दित किया था । सो वे सारगिया वीशाएँ और २८ तुरहियां बनाते हुए यरुशलेम में यहोवा के भवन को आये । और जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने २९ सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा तब परमेश्वर का डर उन के मन में समा गया । और यहोशापात ३० के राज्य को बँन मिला क्योंकि उस के परमेश्वर ने उस को चारों ओर से विभाम दिया ॥

वे यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया । जब वह ३१ राज्य करने लगा तब वह पैंतीस बरस का था और पच्चीस बरस लो यरुशलेम में राज्य करता रहा और उस की माता का नाम अशूवा या जो शिल्ही की बेटी थी । और वह अपने पिता आसा की लीक पर चला और उस ३२ से न मुझ अर्थात् जो यहोवा के लेखे ठीक है सोई वह करता रहा । तो भी ऊँचे स्थान ठाये न गये बरन तब ३३ लो प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर तत्पर न किया था । और आदि से ३४ अन्त लो यहोशापात के और काम इतनी के पुत्र येहू के लिये उस वृत्तान्त में लिखे हैं जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तान्त में पाया जाता है ॥

इस के पीछे यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल ३५ के राजा अहज्याह से जो बड़ी बुद्धता करता था मेल किया । अर्थात् उस ने उस के साथ इसलिये मेल किया ३६ कि तर्शाथ जाने को अहाज बनवाए और उन्हीं ने ऐसे अहाज एस्थान गेवेर में बनवाए । तब दोदाबाह के पुत्र ३७ मारेशाबासी एलीएजेर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नमूवत कही कि तू ने जो अहज्याह से मेल किया इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा । सो अहाज दूट गये और तर्शाथ को न जा सके ॥

(बहीरास का राज्य)

२९. निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सोया और उस को उस के पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई

(१) अर्थात् धन्यवाद का आशय ।

और उस का पुत्र यहीराम उस के स्थान पर राजा हुआ ।  
 २ इस के माई वे वे जो यहोशापात के पुत्र थे अर्थात्  
 अजय्याह यहीएल अजय्याह अजय्याह यीकाएल और  
 शपत्याह ये सब इस्राएल के राजा यहोशापात के पुत्र थे ।  
 ३ और उन के पिता ने उन्हें चांदी सोना और अनमोल  
 वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़वाले नगर  
 दिये थे पर यहोरास को उस ने राज्य दे दिया क्योंकि  
 ४ वह जेडा था । जब यहोरास अपने पिता के राज्य पर  
 उदरा और बलबन्त भी हो गया तब उस ने अपने सब  
 भाइयों को और इस्राएल के कुछ हाकिमों को भी तल-  
 ५ वार से बात किया । जब यहोरास राजा हुआ तब  
 बत्तीस बरस का था और वह आठ बरस लों यरूशलेम  
 ६ में राज्य करता रहा । वह इस्राएल के राजाओं की सी  
 चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था क्योंकि  
 उस की स्त्री अहाब की बेटा थी और वह उस काम को  
 ७ करता था जो यहोवा के लेखे बुरा है । तौमी यहोवा ने  
 दाऊद के घराने को नाश करना न चाहा यह उस बाचा  
 के कारण था जो उस ने दाऊद से बान्धी थी और उस  
 वचन के अनुसार था जो उस ने उस को दिया था कि  
 मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे बंश का दीपक कभी न  
 ८ बुकेगा । उस के दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता  
 ९ छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया । सो यहोरास  
 अपने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर  
 गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे  
 १० हुए थे और रथों के प्रधानों को मारा । ये एदोम यहूदा  
 के बश से छूट गया और आज लों वैसा ही है । उसी  
 समय लिब्ना ने भी उस की अधीनता छोड़ दी वह इस  
 कारण हुआ कि उस ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा  
 ११ को त्याग दिया था । और उस ने यहूदा के पहाड़ों पर  
 ऊंचे स्थान बनाये और यरूशलेम के निवासियों से व्यभि-  
 १२ चार कराया और यहूदा को बहका दिया । सो एलिव्याह  
 नबी का एक पत्र उस के पास आया कि तेरे मूलपुरुष  
 दाऊद का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि तू जो न  
 तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और  
 १३ न यहूदा के राजा आस की लीक पर, बरन इस्राएल के  
 राजाओं की लीक पर चला है और अहाब के घराने की  
 नाई यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार  
 कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों  
 १४ को जो तुझ से अच्छे थे बात किया है, इस कारण यहोवा  
 तेरी प्रजा पुत्रों स्त्रियों और सारी संभति को बड़ी मार से  
 १५ मारेगा, और तू अन्तरियों के रोग से बहुत पीड़ित हो  
 जाएगा यहां लों कि उस रोग के कारण तेरी अन्तरियां

दिन दिन निकलती जाएंगी । और यहोवा ने पलितियों १६  
 को और कृशियों के पास रहनेहारे अरबियों को यहोरास के  
 विरुद्ध उभारा । और वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर १७  
 टूट पड़े और राजभवन में कितनी संभति मिली उस सब  
 को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गये यहां लों  
 कि उस के लहुरे बेटे यहोआहाज को छोड़ उस के पास  
 कोई भी पुत्र न रहा । इस सब के पीछे यहोवा ने उसे १८  
 अन्तरियों के असाध्यरोग से पीड़ित कर दिया । और कुछ १९  
 समय के पीछे अर्थात् दो बरस के अन्त में उस रोग के  
 कारण उस की अन्तरियां निकल पड़ीं और वह अत्यन्त  
 पीड़ित होकर मर गया और उस की प्रजा ने जैसे उस के  
 पुरखाओं के लिये सुगन्धद्रव्य जलाया था वैसा उस के लिये २०  
 कुछ न जलाया । वह जब राज्य करने लगा तब बत्तीस २०  
 बरस का था और यरूशलेम में आठ बरस लों राज्य  
 करता रहा और सब को अग्रिय होकर जाता रहा और  
 उस की दाऊदपुर में मिट्टी दी गई पर राजाओं के कब्रि-  
 स्तान में नहीं ॥

(यहूदा अहज्याह का राज्य)

२२. तब यरूशलेम के निवासियों ने उस के  
 लहुरे पुत्र अहज्याह को उस के  
 स्थान पर राजा किया क्योंकि जो दल अरबियों के संग  
 छावनी में आया था उस ने उस के सब बड़े बेटों को  
 घात किया था सो यहूदा के राजा यहोरास का पुत्र  
 अहज्याह राजा हुआ । जब अहज्याह राजा हुआ तब २  
 बयालीस<sup>१</sup> बरस का था और यरूशलेम में एक ही बरस  
 राज्य किया और उस की माता का नाम अतल्याह था  
 जो ओम्री की पोती थी । वह अहाब के घराने की सी ३  
 चाल चला क्योंकि उस की माता उसे पुष्टता करने की  
 संमति देती थी । और वह अहाब के घराने की नाई वह ४  
 काम करता था जो यहोवा के लेखे बुरा है क्योंकि उस  
 के पिता की मृत्यु के पीछे वे उस को ऐसी सम्मति देते  
 थे जिस से उस का विनाश हुआ । और वह उन की ५  
 सम्मति के अनुसार चलता था और इस्राएल के राजा  
 अहाब के पुत्र यहोरास के संग गिलाद के रामोत में अराम  
 के राजा हजाएल से लड़ने को गया और अरामियों ने  
 योराम को घायल किया । सो राजा यहोरास इसलिये ६  
 लौट गया कि यिज़्रेल में उन बाबों का इलाज कराए जो  
 उस की अरामियों के हाथ से उस समय लगी जब वह  
 हजाएल के साथ लड़ रहा था और अहाब का पुत्र योराम  
 जो यिज़्रेल में रोगी रहा इस से यहूदा के राजा यहोरास  
 का पुत्र अहज्याह<sup>२</sup> उस को देखने गया । और अहज्याह ७

(१) २ राजा ८ : २६ में बार्स । (२) बृज में अजय्याह ।

का विनाश यहीवा की ओर से हुआ क्योंकि वह यौराम के पास गया था कैसे कि जब वह वहाँ पहुँचा तब उस के संग निमशी के पीते यहू का सामना करने को निकल गया जिस का अभिषेक यहीवा ने इसलिये कराया था कि वह अश्वत्थाम के घराने को नाश करे । और जब यहू अश्वत्थाम के घराने को दण्ड दे रहा था तब उस को यहूदा के हाकिम और अहज्याह के भतीजे जो अहज्याह के दहलुए थे मिले सो उस ने उन को बात किया । तब उस ने अहज्याह को दूँदा वह तो शोमरोन में छिपा था सो लोगों ने उस को पकड़ लिया और यहू के पास पहुँचाकर उस को मार डाला तब यह कहकर उस को मिट्टी दी कि यह यहीशापाव का पीता है जो अपने सारे मन से यहीवा की खोज करता था । और अहज्याह के घराने में राज्य करने के योग्य कोई न रह गया ॥

(यहीवासा का राज्य)

- १० जब अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया तब उस ने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया । पर यहीशावत जो राजा की बेटी थी उस ने अहज्याह के पुत्र योआश को बात हीनेवाले राजकुमारों के बीच से चुनाकर धाई समेत बिल्लीने रखने की कीटरी में छिपा दिया यों राजा यहीराम की बेटी यहीशावत जो यहीवादा याजक की स्त्री और अहज्याह की बहिन थी उस ने योआश को अतल्याह से ऐसा छिपा रक्खा कि वह उसे मार डालने न पाई । और वह उन के पास परमेश्वर के भवन में छुः बरस छिपा रहा इतने में अतल्याह देश पर राज्य करती रही ॥

## २३. सातवें बरस में यहीवादा ने दियाव

- बाँधकर यरोहाम के पुत्र अज-  
र्याह यहीहानान के पुत्र विशमाएल ओबेद के पुत्र अज-  
र्याह अदायाह के पुत्र मासेयाह और जिफ्री के पुत्र एलीशा-  
१ पात इन शतपतियों से बाँचा बान्धी । तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में से लेवीयों को और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को  
२ इकट्ठा करके यरुशलेम को ले आये । और उस सारी मण्डली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ बाँचा बाँधी और यहीवादा ने उन से कहा तुमो यह राजकुमार राज्य करेगा जैसे कि यहीवा ने दाऊद के बंध के विषय  
४ कहा है । सो तुम यह काम करो अर्थात् तुम याजकों और लेवीयों की एक तिहाई के लोग जो विभामदिन को  
५ आनेवाले हो सो डेवढ़ीदारी करें । और एक तिहाई के

लोग राजभवन पर रहें और एक तिहाई के लोग जेब के फाटक के पास रहें और सारे लोग यहीवा के भवन के आंगनों में रहें । पर याजकों और सेवा डहल करनेवाले लेवीयों को छोड़ और कोई यहीवा के भवन के भीतर न आने पाए वे तो भीतर आएँ क्योंकि वे पवित्र हैं पर सब लोग यहीवा के म्वन को चौकसी करें । और लेवीय लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिये हुए राजा के चारों ओर रहे और जो कोई भवन के भीतर हुसे सो मार डाला जाए और तुम राजा के आते जाते उस के संग रहना । यहीवादा याजक की इन सारी आशाओं के अनुसार लेवीयों और सब यहूदियों ने किया उन्होंने विभामदिन को आनेवाले और विभामदिन को जानेवाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को अपने साथ कर लिया क्योंकि यहीवादा याजक ने किसी दल के लेवीयों को बिदा न किया था । तब यहीवादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बंधों और फरियाँ और ढालों जो परमेश्वर के भवन में थी दे दीं । फिर उस ने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिये हुए भवन के दक्खिनी कोने से लेकर उत्तरी कोने लों वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उस को आड़ करके खड़ा कर दिया । तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला उस के सिर पर मुकुट और साक्षीपत्र धरकर उसे राजा किया तब यहीवादा और उस के पुत्रों ने उस का अभिषेक किया और लोग बोल उठे राजा जीता रहे । जब अतल्याह को उन लोगों का हारा जो दौड़ते और राजा को सराहते थे सुन पड़ा तब वह लोगों के पास यहीवा के भवन में गई । और उस ने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खंभे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही बजानेवाले खड़े हैं और सब लोग आनन्द करते और तुरहियाँ बजा रहे हैं और गाने बजानेवाले बाजे बजाते और स्तुति करते हैं तब अतल्याह अपने वज्र फाड़कर राजद्रोह राजद्रोहों का पुकारने लगी । तब यहीवादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर लाकर उन से कहा कि उसे अपनी पतियों के बीच से निकाल ले जाओ और जो कोई उस के पीछे चले सो तलवार से मार डाला जाए । याजक ने तो यह कहा कि उसे यहीवा के भवन में न मार डालो । सो उन्होंने दोनों ओर से उस को जगह दी और वह राजभवन के मोड़ाफाटक के द्वार खो गई और वहाँ उन्होंने ने उस को मार डाला ॥

तब यहीवादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच यहीवा की प्रजा होने की बाँचा बाँधई । तब सब लोगों ने दाल के भवन को जाकर ढा दिया

और उस की वैदियों और मूरतों को टुकड़े टुकड़े किया और मत्तान नाम बाल के याजक की वैदियों के साम्हने १८ ही घात किया । तब यहोयादा ने यहोवा के भवन के अधिकारी उन लेवीय याजकों के अधिकार में ठहरा दिये जिन्हें दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल करके हस्त-लिये ठहराया था कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही वे यहोवा को होमबलि चढ़ाया करें और दाऊद की चलाई हुई विधि<sup>१</sup> के अनुसार आनन्द करें और गाएँ ।

१९ और उस ने यहोवा के भवन के फाटकों पर डेवढीदारों को इस लिये खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो सो भीतर जाने न पाए । और वह शतपतियों और रईसों और प्रजा पर प्रभुता करनेहारों और देश के सब लोगों को साथ करके राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और ऊँचे फाटक से होकर राजभवन में २० आया और राजा को राजगद्दी पर बैठाया । सो सब लोग आनन्दित हुए और नगर में शांति हुई । अतल्याह तो तलवार से मार डाली गई थी ॥

**२४. जब** योआशा राजा हुआ तब वह सात बरस का था और यरूशलेम

में चालीस बरस राज्य करता रहा उस की माता का नाम सिब्या था जो बैशोवा की थी । और जब लौ यहोयादा याजक जीता रहा तब लौ योआशा वह काम करता रहा जो यहोवा के लेखे ठीक है । और यहोयादा ने उस के दो ब्याह कराये और उस ने बेटे बेटियाँ जन्माई । इस के पीछे योआशा के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की मनसा उपजी । सो उस ने याजकों और लेवीयों को इकट्ठा करके कहा बरस बरस यहूदा के नगरों में जा जाकर सब इस्त्राएलियों से रुपए लिया करो जिस से तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो देखो इस काम में फुर्ती करो । तौमी लेवीयों ने कुछ फुर्ती न की । सो राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवाकर पूछा क्या कारण है कि तू ने लेवीयों को इट् आशा नहीं दी कि यहूदा और यरूशलेम से उस चन्दे के रुपए ले आओ जिस का नियम यहोवा के दास मूसा और इस्त्राएल की मण्डली ने साक्षीपत्र के तंबू के निमित्त चलाया था । उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएँ बाल देवताओं को दे दी थीं । और राजा ने एक संवूक बनाने की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रक्खा गया ।

(१) मूल में दाऊद के हाथों ।

तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जिस चन्दे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इस्त्राएल में चलाया था उस के रुपए यहोवा के निमित्त ले आओ । सो सारे हाकिम और प्रजा के सब लोग आनन्दित हो रुपए ले आकर जब लौ चन्दा पूरा न हुआ तब लौ संवूक में डालते गये । और जब जब वह संवूक लेवीयों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुँचाया जाता और यह जान पड़ता था कि उस में रुपए बहुत हैं तब तब राजा के प्रधान और महायाजक का नाइब आकर संवूक को खाली करते तब उसे लेकर फिर उस के स्थान पर रख देते थे । उन्होंने दिन दिन ऐसा किया और बहुत रुपए इकट्ठा किए तब राजा और यहोयादा ने वह रुपए यहोवा के भवन का काम करानेहारों को दे दिये और उन्होंने ने राजा और बहइयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिये और लोहारों और ठठेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिये मजूरी पर रक्खा । सो कारीगर काम करते गये और काम पूरा होता गया<sup>२</sup> और उन्होंने ने परमेश्वर का भवन जैसे का तैसा बनाकर इट्ट कर दिया । जब उन्होंने ने वह काम निगटा दिया तब वे शेष रुपए राजा और यहोयादा के पास ले गये और उस से यहोवा के भवन के लिये पात्र बनाये गये अर्थात् सेवा टहल करने और होमबलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चाँदी के पात्र । और जब लौ यहोयादा जीता रहा तब लौ यहोवा के भवन में होमबलि नित्य चढ़ाये जाते थे । पर यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया । जब वह मरा तब एक सौ तीस बरस का हुआ था । और उस को दाऊदपुर में राजाओं के बीच मिट्टी दी गई क्योंकि उस ने इस्त्राएल में और परमेश्वर के और उस के भवन के विषय भला किया था ॥

यहोयादा के मरने के पीछे यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दण्डवत् की और राजा ने उन की मानी । तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूरतों की उपासना करने लगे सो उन के ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का । तौमी उस ने उन के पास नहीं भेजे कि उन को यहोवा के पास फेर लाएँ और इन्होंने चिता दिया पर उन्होंने ने कान न लगाया । और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया और वह लोगों से ऊपर खड़ा होकर उन से कहने लगा परमेश्वर यों कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो ऐसा

(२) मूल में कान पर पड़ी खड़ी ।

करके तुम भाग्यवान् नहीं हो सकते देखो तुम ने तो यहोवा को त्याग दिया है इस कारण उस ने भी तुम को त्याग दिया है । तब लोगों ने उस से द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस को पत्थरबाह किया । यो राजा योआशा ने वह प्रीति बिसराकर जो यहोवादा ने उस से की थी उस के पुत्र को घात किया और भरते समय उस ने कहा यहोवा इस पर दृष्टि करके इस का लेखा ले । नये बरस के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम को आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नाश किया और उन का सारा धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा । अरामियों की सेना थोड़े ही पुरुषों की तो आई पर यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उन के हाथ कर दी इस कारण कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर की त्याग दिया था । और यहोआशा को भी उन्होंने दण्ड दिया । और जब वे उसे बहुत ही रोगी छोड़ गये तब उस के कर्मचारियों ने यहोवादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उस से द्रोह की गोष्ठी करके उसे उस के बिल्लौने ही पर ऐसा मारा कि वह मर गया और उन्होंने ने उस को दाऊदपुर में मिट्टी दी पर राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं । जिन्होंने उस से राजद्रोह की गोष्ठी की सो ये थे अर्थात् शिमात अम्मोनिन का पुत्र जाबाद और शिम्रीत मोआबिन का पुत्र यहोजाबाद । उस के बेटों के विषय और उस के विरुद्ध जो बड़े दण्ड की नबूवत हुई उस के और परमेश्वर के भवन के बनने के विषय ये सब बातें राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक में लिखी हैं । और उस का पुत्र अमस्याह उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(अमस्याह का राज्य)

**२५. जब अमस्याह राज्य करने लगा तब**

पच्चीस बरस का था और यरूशलेम में उनतीस बरस लों राज्य करता रहा और उस की माता का नाम यहोअहान था जो यरूशलेम की थी । उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे ठीक है पर खरे मन से न किया । जब राज्य उस के हाथ में स्थिर हो गया तब उस ने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उस के पिता राजा को मार डाला था । पर उन के लड़केवालों को उस ने न मार डाला क्योंकि उस ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए जिस ने पाप किया हो सोई उस पाप के

कारण मार डाला जाए । और अमस्याह ने यहूदा को बरस सारे यहूदियों और बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उन के पितरों के बरानों के अनुसार सहस्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया और उन में से जितनों की अवस्था बीस बरस की वा उस से अधिक थी उन की गिनती करके तीन लाख भाला चलानेहारे और ढाल उठानेहारे बड़े बड़े योद्धा पाये । फिर उस ने एक लाख इस्राएली शूरवीरों को भी एक सौ किक्कार चान्दी के तुल्लाकर रक्खा । परन्तु परमेश्वर के एक जन ने उस के पास आकर कहा हे राजा इस्राएल की सेना तेरे संग जाने न पाए क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात् एप्रैम की सारी संतान के संग नहीं रहता । तौभी तू जाकर पुरुषार्थ कर और युद्ध के लिये हियाव बांध परमेश्वर तुम्हें शत्रुओं के साम्हने गिराएगा क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों के लिये परमेश्वर सामर्थी है । अमस्याह ने परमेश्वर के जन से पूछा फिर जो सौ किक्कार चान्दी में इस्राएली दल को दे चुका हूँ उस के विषय क्या करूँ । परमेश्वर के जन ने उत्तर दिया यहोवा तुम्हें इस से भी बहुत अधिक दे सकता है । तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात् उस दल को जो एप्रैम की ओर से उस के पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाएं । तब उन का कोप यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यन्त कोपित होकर अपने स्थान को लौट गये । पर अमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और लोन की तराई को जाकर दस हजार सेईरियों को मार दिया । और भीर दस हजार को यहूदियों ने बंधुआ करके ढांग की चोटी पर ले जाकर ढांग की चोटी पर से गिरा दिया सो सब चूर चूर हो गये । पर उस दल के पुरुष जिसे अमस्याह ने लौटा दिया कि वे उस के संग युद्ध करने को न जाएं शोमरोन से बेथोरोन लों यहूदा के सब नगरों पर टूट पड़े और उन के तीन हजार निवासी मार डाले और बहुत लूट ले ली ॥

जब अमस्याह एदोनियों का संहार करके लौट आया उस के पीछे उस ने सेईरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के साम्हने दण्डवत् करने और उन्हीं के लिये धून जलाने लगा । सो यहोवा का कोप अमस्याह पर भड़क उठा और उस ने उस के पास एक नबी भेजा जिस ने उस से कहा जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा न सके उन की खोज में तू क्यों लगा । वह उस से बातें कही रहा था कि उस ने उस से पूछा क्या हम ने तुम्हें राजमन्त्री ठहरा दिया है चुप रह क्या तू मार खाना चाहता है । तब वह

नबी यह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुम्हें नाश करने को बना है क्योंकि तुने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी ॥

- १७ तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर इस्राएल के राजा योआश के पास जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था यों कहला भेजा कि आ हम एक दूसरे का साम्हना करें । इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यों कहला भेजा कि लबानोन पर की एक झड़बेड़ी ने लबानोन के एक देवदार के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे इतने में लबानोन में का कोई बनेला पशु पास से चला गया और उस झड़बेड़ी को रौंद डाला । तू कहता है कि मैं ने एदोमियों को जीत लिया है इस कारण तू फूल उठा और बढ़ाई मारता है । अपने घर में रह जा तू अपनी हानि के लिये यहां क्यों हाथ डालेगा जिस से तू क्या बरन यहूदा भी नीचा खाएगा । पर अमस्याह ने न माना ।
- २० यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें उन के शत्रुओं के हाथ कर दे क्योंकि वे एदोम के देवताओं की खोज में लग गये थे । सो इस्राएल के राजा योआश ने चढ़ाई की और उस ने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का साम्हना किया ।
- २१ और यहूदा इस्राएल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा । तब इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को जो यहोआहाज का पोता और योआश का पुत्र था बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रैमी फाटक से कोनेवाले फाटक लें चार सौ हाथ गिरा दिये ।
- २४ और जितना सोना चान्दी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था उस सब को और बन्धक लोगों को भी लेकर वह शोमरोन को लौट गया ॥
- २५ यहोआहाज के पुत्र इस्राएल के राजा योआश के मरने के पीछे योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह २६ पन्द्रह बरस लों जीता रहा । आदि से अन्त लों अमस्याह के और काम क्या यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं । जिस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया उस समय से यरूशलेम में उस के विरुद्ध द्रोह की गोर्छा होने लगी और वह लाकीश को भाग गया सो वृत्तों ने लाकीश लों उस का पीछा कर के उस को वहीं मार डाला । तब वह खोड़ों पर रखकर पहुँचाया गया और उसे उस के पुरखाओं के बीच यहूदा के पुर में मिट्टी दी गई ॥

(उज्जिय्याह का राज्य)

२६. तब सारी यहूदी प्रजा ने उज्जिय्याह को जो सोलह बरस का था लेकर उस

- के पिता अमस्याह के स्थान पर राजा कर दिया । जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सोया उस के पीछे उज्जिय्याह ने एलोत नगर को हड़ करके यहूदा के वश में फिर कर लिया । जब उज्जिय्याह राज्य करने लगा तब सोलह बरस का था और यरूशलेम में बावन बरस लों राज्य करता रहा और उस की माता का नाम यकील्याह या जो यरूशलेम की थी । जैसे उस का पिता अमस्याह वह किया करता था जो यहोवा के लेखे ठीक है वैसे हा वह भी करता था । और जकर्याह के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उस को भागवान् किये रहा । सो उस ने जाकर पलिशितयो से युद्ध किया और गत यब्ने और अशदोद की शहरपनाहें गिरा दीं और अशदोद के आसपास और पलिशितयो के बीच बीच नगर बसाये । और परमेश्वर ने पलिशितयो और गूर्बालवासी अरबियों और भूनियों के विरुद्ध उस की सहायता की । और अम्मोनी उज्जिय्याह का भेंट देने लगे बरन उस की कीर्ति मिस्र के सिवाने लों भी फैल गई क्योंकि वह अत्यन्त सामर्थी हो गया था । फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मत बनवा कर हड़ किये । और उस के बहुत ढोर थे सो उस ने जंगल में और नीचे के देश और चारस देश में गुम्मत बनवाये और बहुत से कुरड खुदवाये और पहाड़ों पर और कर्मेल में उस के किसान और दाख की बारियों के मात्ती ये क्योंकि वह खेती का चाहनेहारा था । फिर उज्जिय्याह के योद्धाओं की एक सेना थी जो गिनती थीएल मुंशी और मासेयाह सरदार इनन्याह नाम राजा के एक शक्ति की आशा से करते थे उस के अनुसार वह दल दल करके लड़ने को जाती थी । पितरों के बरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे उन की पूरी गिनती दो हजार छः सौ थी । और उन के अधिकार में तीन लाख साठे सात हजार की एक बड़ी सेना थी जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करनेहारे थे । इन के लिये अर्थात् सारी सेना के लिये उज्जिय्याह ने दार्ले भाले टोप किलभ, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किये । फिर

(१) वा जो परमेश्वर के भय मनने की शिक्षा देता था ।



उस ने यरूशलेम में गुम्मतों और कंगुरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यन्त्र भी बनवाये जिन के द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जायें। और उस की कीर्ति दूर दूर लों फैल गई क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वह सामर्थी ही गया ॥

- १६ परन्तु जब वह सामर्थी हो गया तब उस का मन फूल उठा और उस ने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासवात किया अर्थात् वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मन्दिर में घुस गया। और अजर्याह याजक उस के पीछे भीतर गया और उस के संग यहोवा के अस्ती याजक भी जो वीर थे गये। और उन्होंने उज्जिय्याह राजा का साम्हना करके उस से कहा है उज्जिय्याह यहोवा के लिये धूप जलाना तेरा काम नहीं है। रुन की सन्तान अर्थात् उन याजकों ही का है जो धूप जलाने को पवित्र किये गये हैं तू पवित्रस्थान से निकल जा तू ने विश्वासवात किया है यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा।
- १६ तब उज्जिय्याह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिये हुए झुंझला उठा और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उस के माथे पर कोढ़ प्रगट हुआ। और अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उस के माथे पर कोढ़ निकला है सो उन्होंने उस को वहां से भटपट निकाल दिया बरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है उस ने आप बाहर जाने को उतावली की। और उज्जिय्याह राजा मरने के दिन लों कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था वह तो यहोवा के भवन में जाने न पाता था और उस का पुत्र योताम राजघराने के काम पर ठहरा और लोगों का न्याय करता था। आदि से अन्त लों उज्जिय्याह के और कामों का वर्णन तो अमीस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा। निदान उज्जिय्याह अपने पुरखाओं के संग सोया और उस को उस के पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई। उन्होंने ने तो कहा कि वह कोढ़ी था। और उस का पुत्र योताम उस के स्थान पर राजा हुआ ॥
- (योताम का राज्य)

## २७. जब योताम राज्य करने लगा तब

पच्चीस बरस का था और यरूशलेम में सोलह बरस तक राज्य करता रहा और उस की माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी।

(१) मूल में भवन से कहा था।

उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे ठीक है अर्थात् २  
जैसा उस के पिता उज्जिय्याह ने किया था ठीक वैसा ही  
उस ने किया तौभी वह यहोवा के मन्दिर में न घुसा।  
और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे।  
उसी ने यहोवा के भवन के ऊपरलै फाटक को बनाया ३  
और ओपेल की शहरपनाह पर बहुत कुछ बनवाया।  
फिर उस ने यहूदा के पहाड़ी देश में कई एक नगर इढ़  
किये और जंगलों में गढ़ और गुम्मत बनाये। और वह ४  
अम्मोनियों के राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया  
सो उसी बरस में अम्मोनियों ने उस को सी किकार  
चांदी और दस दस हजार फेर गेहूं और जब दिये और  
फिर दूसरे और तीसरे बरस में भी उन्होंने ने उसे उतना  
ही दिया। ये योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वह अपने ६  
आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख जानकर खरी  
चाल चलता था। योताम के और काम और उस के ७  
सब युद्ध और उस की चाल चलन इन बातों का वर्णन  
तो इस्राएल और यहूदा के राजाओं के वृत्तान्त की  
पुस्तक में लिखा है। जब वह राजा हुआ तब तो पच्चीस ८  
बरस का था और यरूशलेम में सोलह बरस तक राज्य  
करता रहा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग ९  
सोया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उस का  
पुत्र आहाज उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(आहाज का राज्य)

## २८ जब आहाज राज्य करने लगा तब

वह बीस बरस का था और  
सोलह बरस तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और  
अपने मूलपुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो  
यहोवा के लेखे ठीक है। परन्तु वह इस्राएल के राजाओं २  
की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां  
दलवाकर बनाई, और हिन्नोम के बेटे की तराई में धूप ३  
जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार  
जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से देश से  
निकाल दिया था अपने लड़केबालों को आग में होम  
कर दिया। और उंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और ४  
सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया  
करता था। सो उस के परमेश्वर यहोवा ने उस को अरा- ५  
मियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उस को जीत-  
कर उस के बहुत से लोगों को बंधुआ करके दमिश्क को  
ले गये। और वह इस्राएल के राजा के बश में कर ६  
दिया गया जिस ने उसे बड़ी मार से मारा। और  
रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में एक  
लाख बीस हजार लोगों को जो सब के सब वीर थे घात

किया क्योंकि उन्होंने ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था । और जिक्की नाम एक एग्प्टी वीर ने मासेयाह नाम एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान अजीकाम को और एलकाना को जो राजा के नीचे था ८ मार डाला । और इस्राएली अपने भाइयों में से स्त्रियों बेटों और बेटियों को मिलाकर दो लाख लोगों को बंधुआ करके और उन की बहुत लूट भी छीनकर शोमरोन की ओर ले चले । पर ओवेद नाम यहोवा का एक नबी वहां था वह शोमरोन के आनेवाली सेना से मिलने को जाकर कहने लगा सुनो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर भुंभलाकर उन को तुम्हारे हाथ कर दिया है और तुम ने उन को ऐसा क्रोध करके घात किया १० जिस की चित्ताहट स्वर्ग लों पहुंच गई है । और अब तुम ने ठाना है कि यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास दासी करके दबाये रखें क्या तुम भी अपने पर- ११ मेश्वर यहोवा के यहां दोषी नहीं हो । सो अब मेरी सुनो और इन बन्धुओं को जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बन्धुआ करके ले आये हो लौटा दो यहोवा का कोप तो १२ तुम पर भड़का है । तब एग्प्टियों के कितने मुख्य पुरुष अर्थात् योहानान का पुत्र अजर्याह मशिल्लेमोत का पुत्र बेरेक्याह शल्लूम का पुत्र यहिजकियाह और हल्दै का १३ पुत्र अमासा लड़ाई से आनेहारों का साम्हना करके, उन से कहने लगे तुम इन बन्धुओं को यहां मत ले आओ क्योंकि तुम ने वह ठाना है जिस के कारण हम यहोवा के यहां दोषी हो जायेंगे और उस से हमारा पाप और दोष बढ़ जायगा हमारा दोष तो बढ़ा है और इस्राएल १४ पर बहुत कोप भड़का है । सो उन हथियारबंदों ने बंधुओं और लूट को हाकिमों और सारी सभा के साम्हने छोड़ १५ दिया । तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने ने उठकर बंधुओं को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहिनाई और खाना खिलाया और पाना पिलाया और तेल मला और सब निर्धल लोगों को गदहों पर चढ़ाकर यरीहो को जो खजूर का नगर कहलाता है उन के भाइयों के पास पहुंचा दिया तब शोमरोन को लौट गये ॥

१६ उस समय राजा आहाज ने अशूर के राजाओं के पास भेजकर सहायता मांगी । क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उस को मारा और बंधुओं को ले गये १७ थे । और पलिश्तियों ने नीचे के देश और यहूदा के दक्खिन देश के नगरों पर चढ़ाई करके बेतशेमेश अय्या-लोन और गदेरेत को और अपने अपने गांवों समेत सोको तिम्ना और गिमजो को ले लिया, और उन में रहने

लगे थे । यों यहोवा ने इस्राएल के राजा आहाज के १९ कारण यहूदा को दबा दिया क्योंकि वह निरंकुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया । सो २० अशूर का राजा तिलगतपिलनेसेर उस के विरुद्ध आया और उस को कष्ट दिया बल नहीं दिया । आहाज ने तो २१ यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिमों के घरों में से धन निकाल कर अशूर के राजा को दिया पर इस से उस की कुछ सहायता न हुई । और क्लेश के समय इस २२ राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया । और उस ने दमिश्क के देवताओं के लिये जिन्होंने उस २३ को मारा था बलि चढ़ाया क्योंकि उस ने यह सोचा कि अरामी राजाओं के देवताओं ने उन की सहायता की सो मैं उन के लिये बलि करूंगा कि वे मेरी सहायता करें । परन्तु वे उस के और सारे इस्राएल के नीचा खाने के कारण हुए । फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र २४ बटोर कर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बन्द कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनाईं । और यहूदा के एक एक नगर में उस ने २५ पराये देवताओं को पूज जलाने के लिये ऊंचे स्थान बनाये और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रिस दिलाई । और उस के और कामों और आदि से अन्त २६ लों उस की सारी चाल चलन का बर्णन यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक में लिखा है । निदान आहाज अपने पुरखाओं के संग सोया और उस २७ को यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई पर वह इस्राएल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया । और उस का पुत्र हिजकियाह उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(हिजकियाह की की हुई सुधारें)

२६. जब हिजकियाह राज्य करने लगा तब पचीस बरस का था और उनतीस बरस लों यरूशलेम में राज्य करता रहा और उस की माता का नाम अबियाह था जो जकर्याह की बेटी थी । जैसे उस के मूलपुरुष दाऊद ने बही किया था जो यहोवा के लेखे ठीक है वैसे ही उस ने भी किया । अपने राज्य के पहिले बरस के पहिले महीने में उस ने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिये और उन की मरम्मत भी कराई । तब उस ने याजकों और लेवीयों को ले आकर पूरब के चौक में इकट्ठा किया, और उन से कहने लगा हे लेवीयो मेरी सुनो अब अपने अपने को पविः करो और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के भवन को

(१) मूल में बांटकर ।

- ६ पवित्र करो और पवित्रस्थान में से मेल निकालो । देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह किया था जो हमारे परमेश्वर यहेवा के लिये बुरा है और उस को त्याग करके यहेवा के निवास से मुँह फेरकर उस को ७ पीठ दिखाई थी । फिर उन्होंने ने ओसारे के द्वार बन्द किये और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्रस्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिये न तो धूप जलाया न ८ होमबलि चढ़ाया था । सो यहेवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उस ने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और तात्नी यजाने का कारण हो जाएं जैसे कि तुम अपनी आँखों से देख सकते ९ हो । देखो इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गये और हमारे बेटे बेटियाँ और स्त्रियाँ बंधुआई में चली गई १० हैं । अब मेरे मन में यह है कि इस्राएल के परमेश्वर यहेवा से बाचा बांधूँ इसलिये कि उस का भड़का हुआ ११ कोप हम पर से उतर जाए । हे मेरे बेटो दीलाई न करो देखो यहेवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलानेहारे होने के लिये तुम्हीं को चुन लिया है ॥
- १२ सो ये लेवीय उठ खड़े हुए अर्थात् कथातियों में से अमासै का पुत्र महत और अजर्याह का पुत्र योएल और मरारीयो में से अब्दी का पुत्र कीश और यहल्लेलेल का पुत्र अजर्याह और गेशोनियों में से जिग्मा का पुत्र योआह १३ और योआह का पुत्र एदेन, और एलीलायान की सन्तान में से शिम्री और यूएल और आसाप की सन्तान में से १४ जकर्याह और मत्तन्याह, और हेमान की सन्तान में से यहूएल और शिमी और यवूतन की सन्तान में से शमायाह १५ और उञ्जीएल । ये अपने भाइयों को इकट्ठा कर अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उस ने यहेवा से बचन पाकर दी थी यहेवा के भवन के १६ शुद्ध करने के लिये भीतर गये । तब याजक यहेवा के भवन के भीतरी भाग के शुद्ध करने के लिये उस में जाकर यहेवा के मन्दिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएँ मिलीं उन सब को निकालकर यहेवा के भवन के आंगन में ले गये और लेवीयों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में १७ पहुँचा दिया । पहिले महीने के पहिले दिन को उन्होंने ने पवित्र करने का आरंभ किया और उसी महीने के आठवें दिन को वे यहेवा के ओसारे लौ आ गये सो उन्होंने ने यहेवा के भवन को आठ दिन में पवित्र किया और पहिले महीने के सोलहवें दिन को उन्होंने ने उसे निपटा दिया । १८ तब उन्होंने ने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा हम यहेवा के सारे भवन को और पात्रों समेत

होमबलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके । और जितने पात्र राजा आहाज ने अपने १९ राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिये उन को हम ने ठीक करके पवित्र किया है और वे यहेवा की वेदी के साम्हने रखे हुए हैं ।

सो राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों २० को इकट्ठा करके यहेवा के भवन को गया । तब वे राज्य २१ और पवित्रस्थान और यहूदा के निमित्त सात बछड़े सात मेढ़े सात मेड़ के बच्चे और पापबलि के लिये सात बकरे ले आये और उस ने हारून की सन्तान के लेवीयों को उन्हें यहेवा की वेदी पर चढ़ाने की आज्ञा दी । सो उन्होंने ने २२ बछड़े बलि किये और याजकों ने उन का लोहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया तब उन्होंने ने मेढ़े बलि किये और उन का लोहू भी वेदी पर छिड़क दिया और मेड़ के बच्चे बलि किये और उन का भी लोहू वेदी पर छिड़क दिया । तब २३ वे पापबलि के बकरों को राजा और मण्डली के साम्हने समीप ले आये और उन पर अपने अपने हाथ टेके । तब २४ याजकों ने उन को बलि करके उन का लोहू वेदी पर पापबलि किया जिस से सारे इस्राएल के लिये प्रायश्चित्त किना जाए क्योंकि राजा ने होमबलि और पापबलि सारे इस्राएल के लिये किये जाने की आज्ञा दी थी । फिर २५ उस ने दाऊद और राजा के दर्शा गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार जो यहेवा की ओर से उस के नबियों के द्वारा आई थी भांभ सारंगियाँ और वीयाएँ लिये हुए लेवीयों को यहेवा के भवन में खड़ा किया । सो लेवीय दाऊद के चलाये बाजे लिये हुए और याजक २६ तुरहियाँ लिये हुए खड़े हुए । तब हिजकिय्याह ने वेदी पर २७ होमबलि चढ़ाने की आज्ञा दी और जब होमबलि चढ़ाने लगा तब यहेवा का गीत आरंभ हुआ और तुरहियाँ और इस्राएल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे । और सारी २८ मण्डली के लोग दण्डवत् करते और गानेहारे गाते और तुरही फंकनेहारे फंकते रहे यह सब तब लौ होता रहा जब लौ होमबलि चढ़ाने चुकी । और जब बलि २९ चढ़ चुकी तब राजा और जितने उस के संग वहाँ थे उन सभी ने सिर झुकाकर दण्डवत् की । और राजा हिज- ३० किय्याह और हाकिमों ने लेवीयों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाप दर्शा के भजन गाकर यहेवा की स्तुति करो सो उन्होंने ने आनन्द के साथ स्तुति की और सिर नवाकर दण्डवत् की । तब हिजकिय्याह ३१ कहने लगा अब तुम ने यहेवा के निमित्त अपना संस्कार किया है सो समीप आकर यहेवा के भवन में

(१) मूल में बचन ।

मेलबलि और धन्यवादबलि पहुँचाओ । सो मण्डली के लोगों ने मेलबलि और धन्यवादबलि पहुँचा दिये और कितने अपनी इच्छा से देने चाहते थे उन्हें ने होमबलि भी ३२ पहुँचाये । जो होमबलिपशु मण्डली के लोग तो आये उन की गिनती सत्तर बैल एक सौ भेड़ें और दो सौ भेड़ के बच्चे थी ये सब यहोवा के निमित्त होमबलि के काम में ३३ आये । और पवित्र किये हुए पशु छः सौ बैल और तीन हजार भेड़बकरियाँ थीं । परन्तु याजक ऐसे थोड़े थे कि वे ३४ सब होमबलि पशुओं की खालें न उतार सके सो उन के भाई लेवीय तब लौ उन की सहायता करते रहे जब लौ वह काम निपट न गया और याजकों ने अपने को पवित्र न किया क्योंकि लेवीय अपने को पवित्र करने के लिये ३५ याजकों से अधिक सीधे मन के थे । और फिर होमबलि-पशु बहुत थे और मेलबलिपशुओं की चर्बा भी बहुत थी और एक एक होमबलि के साथ अर्घ भी देना पड़ा यों ३६ यहोवा के भवन में की उपासना ठीक की गई । तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनन्दित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिये तैयार किया था क्योंकि वह काम अचानक हो गया था ॥

(हिजकिय्याह का माना हुआ फसह)

**३०. फिर** हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा में कहला मेजा

और एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख मेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये फसह मानने को आओ । २ राजा और उस के हाकिमों और यरूशलेम की मण्डली ने तो सम्मति की थी कि हम फसह को दूसरे महीने में ३ मानेंगे । क्योंकि वे उसे उस समय में इस कारण न मान सकते थे कि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए ४ थे । और यह बात राजा और सारी मण्डली को अच्छी ५ लगी । तब उन्होंने ने यह ठहरा दिया कि बेशर्बा से ले दान लों के सारे इस्राएलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये फसह ६ मानने को चले आओ । बहुत लोगों ने तो उस को वैसा न माना था जैसा लिखा है सो हरकारे राजा और उस के हाकिमों से चिट्ठिया लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इस्राएल और यहूदा में घूमे और वह कहते गये कि हे इस्राएलियों राजाहीम इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह तुम बचे हुए लोगों की ओर फिरो जो अश्शूर के राजाओं के हाथ से ७ बचे हुए हो । और अपने पुरखाओं और भाइयों के समान

मत बनो जिन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उस ने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया जैसे कि तुम्हें देख पड़ता है । अब अपने ८ पुरखाओं की नाई हठ न करो यहोवा को बचन देकर उस के उस पवित्रस्थान को आओ जिसे उस ने सदा के लिये पवित्र किया है और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उस का भड़का हुआ कोप तुम पर से उतर जाए । यदि तुम यहोवा की ओर फिरो तो जो ९ तुम्हारे भाइयों और लड़केबालों को बन्धुआ करके ले गये हैं सो उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौटने पाएंगे क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है और यदि तुम उस की ओर फिरो तो वह अपना मुंह तुम से फेरे न रहेगा । यों हरकारे एप्रैम और मनश्शे १० के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गये पर उन्होंने ने उन की हंसी की और उन्हें ठट्टों में उड़ाया । तोभी आशेर मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन ११ होकर यरूशलेम को आये । और यहूदा में भी परमेश्वर १२ की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आशा राजा और हाकिमों ने यहोवा के बचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तत्पर हुए । सो बहुत लोग यरूशलेम १३ में इसलिये इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अलमीरी रोटी का पक्व मानें और बहुत भारी सभा हो गई । और उन्होंने १४ ने उठकर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया । तब दूसरे महीने के चौदहवें दिन को उन्होंने फसह के १५ पशु बलि किये सो याजक और लेवीय लजित हुए और अपने को पवित्र करके होमबलियों को यहोवा के भवन में ले आये । और वे अपने नियम के अनुसार अर्थात् १६ परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए और याजकों ने लोहू को लेवीयों के हाथ से लेकर छिड़क दिया । क्योंकि ममा में बहुतेरे १७ थे जिन्होंने अपने को पवित्र न किया था सो सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवीयों को दिया गया कि उन को यहोवा के लिये पवित्र करें । बहुत से लोगों ने अर्थात् एप्रैम मनश्शे इस्साकार १८ और जबूलून में से बहुतो ने अपने को शुद्ध न किया या तोभी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई बिधि के विरुद्ध खाते थे । क्योंकि हिजकिय्याह ने उन के लिये यह प्रार्थना की थी कि यहोवा जो भला है सो उन सबों के पाप ढाँप दे जो परमेश्वर की अर्थात् अपने पितरों के १९ परमेश्वर यहोवा की आज्ञा में मन लगाये हैं चाहे वे

(१) मूल में हाथ ।

२० पवित्रस्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न हों। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा  
 २१ किया था। और जो इस्राएली यरूशलेम में हाजिर थे  
 सो सात दिन लों अखमीरी रोटी का पर्व बड़े आनन्द  
 से मानते रहे और दिन दिन लेवीय और बाजक ऊंचे  
 शब्द के बाजे यहोवा के लिये बजाकर यहोवा की स्तुति  
 २२ करते रहे। और जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धि-  
 मानी के साथ करते थे उन को हिजकिय्याह ने धीरज  
 बन्धाया। वे वे मेलबलि चढ़ाकर और अपने पितरों के  
 परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करके उस नियत पर्व के  
 २३ सातों दिन खाते रहे। तब सारी सभा ने सम्मति की कि  
 हम और सात दिन मानेंगे सो उन्होंने ने और सात दिन  
 २४ आनन्द से माने। क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह  
 ने सभा को एक हजार बछड़े और सात हजार भेड़  
 बकरियां दे दीं और हाकिमों ने सभा को एक हजार  
 बछड़े और दस हजार भेड़ बकरियां दीं और बहुत से  
 २५ याजकों ने अपने को पवित्र किया। तब याजकों और  
 लेवीयों समेत यहूदा की सारी सभा और इस्राएल में से  
 आये हुए लोगों की सभा और इस्राएल के देश से आये हुए  
 और यहूदा में रहनेवाले परदेशी इन सबों ने आनन्द  
 २६ किया। सो यरूशलेम में बड़ा आनन्द हुआ क्योंकि  
 दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलैमान के दिनों से  
 २७ ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। निदान लेवीय याजकों  
 ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उन की  
 सुनी गई और उन की प्रार्थना उस के पवित्र धाम तक  
 अर्थात् स्वर्ग तक पहुँची ॥

(हिजकिय्याह का किया हुआ उपासना का प्रबन्ध)

### ३१. जब यह सब हो चुका तब जितने

इस्राएली हाजिर थे उन सबों ने  
 यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और बिन्यामीन  
 और एप्रैम और मनश्शे में की लाठों को तोड़ दिया  
 अशेरों को काट डाला और ऊंचे स्थानों और वेदियों को  
 गिरा दिया यहां लो कि उन्होंने ने उन सब का अन्त कर  
 दिया। तब सब इस्राएली अपने अपने नगर को लौटकर  
 २ अपनी अपनी निज भूमि में पहुँचे। और हिजकिय्याह ने  
 याजकों के दलों को और लेवीयों को बरन याजकों और  
 लेवीयों दोनों को दल दल के अनुसार और एक एक  
 मनुष्य को उस की सेवकाई के अनुसार इसलिये ठहरा  
 दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होम-  
 बलि मेलबलि सेवा टहल धन्यवाद और स्तुति किया

करें। फिर उस ने अपनी संपत्ति में से राजभाग को ३  
 होमबलियों के लिये ठहरा दिया अर्थात् सबेरे और सांझ  
 के होमबलि और विभाम और नये चांद के दिनों और  
 नियत समयों के होमबलि के लिये जैसे कि यहोवा की  
 व्यवस्था में लिखा है। और उस ने यरूशलेम में रहने- ४  
 वाले लोगों को याजकों और लेवीयों के भाग देने की  
 आज्ञा दी इसलिये कि वे यहोवा की व्यवस्था के काम  
 मन लगाकर कर सकें। यह आज्ञा सुनते ही इस्राएली ५  
 अन्न नये दाखमधु टटके तेल मधु आदि खेती की सब  
 भांति की पहिली उपज बहुतायत से देने और सब  
 वस्तुओं का दशमांश बहुत लाने लगे। और जो इस्राएली ६  
 और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे वे भी बैलों और  
 भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का  
 दशमांश जो उन के परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र  
 की गई थीं ले आकर राशि राशि करके रखने लगे।  
 यह राशि लगाना उन्होंने ने तीसरे महीने में आरंभ किया ७  
 और सातवें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और ८  
 हाकिमों ने आकर राशियों को देखा तब यहोवा को  
 और उस की प्रजा इस्राएल को भी धन्य धन्य कहा।  
 तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवीयों से उन राशियों ९  
 के विषय पूछा। और अजर्याह महायाजक ने जो १०  
 सादोक के घराने का था उस से कहा जब से लोग  
 यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे तब से  
 हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं बरन बहुत बचा भी  
 करता है क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशिष  
 दी है और जो बच रहा है उसी का यह बड़ा ढेर है।  
 तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार ११  
 करने की आज्ञा दी और वे तैयार की गईं। तब १२  
 लोगों ने उठाई हुई भेंटें दशमांश और पवित्र की हुई  
 वस्तुएं सच्चाई से पहुँचाई और उन के अधिकारी मुख्य  
 तो कोनन्याह नाम एक लेवीय और दूसरा उस का भाई  
 शिमी था। और कोनन्याह और उस के भाई शिमी १३  
 के नीचे हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के  
 प्रधान अजर्याह दांनों की आज्ञा से अहीएल अजर्याह  
 नहत असाहेल यरीमेत योजाबाद एलीएल यिस्मक्याह  
 महल और बनायाह भी अधिकारी थे। और परमे- १४  
 श्वर को दिये हुए स्वेच्छाबलियों का अधिकारी यिम्ना  
 लेवीय का पुत्र केरे था जो पूरबी फाटक का डेवढीदार  
 था कि वह यहोवा की उठाई हुई भेंटें और परमपवित्र  
 वस्तुएं बाँटा करे। और उस के अधिकार में एडेन १५

मिन्यामीन येशू शमायाह अमर्याह और शकन्याह याजकों के नगरों में रहते थे कि वे क्या बड़े क्या छोटे अपने भाइयों १६ को उन के दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करें, और उन से अलग उनको भों दें जो पुरुषों की वंशावली के अनुसार गिने जाकर तीन बरस की अवस्था के वा उस से अधिक थे और अपने अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवकाई निवाहने को दिन दिन के काम के अनुसार १७ यहीवा के भवन में जाया करते थे, और उन याजकों को भों दें जिन की वंशावली तो उन के पितरों के घरानों के अनुसार को गई और उन लेवीयों को भी जो बीस बरस की अवस्था से ले आगे को अपने अपने दल के अनुसार १८ अपने अपने काम निशाहते थे, और सारी सभा में उन के बालबच्चों छियों बेटों और बेटियों को भों दें जिन की वंशावली थी क्योंकि वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते १९ थे । फिर हारून की सन्तान के याजकों को भी जो अपने अपने नगरों के चराईवाले मैदान में रहते थे देने के लिये वे पुरुष ठहरे थे जिन के नाम ऊपर लिखे हुए थे कि वे याजकों के सब पुरुषों और उन सब लेवीयों २० को भी भाग दिया करें जिन की वंशावली थी । और सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबन्ध किया और जो कुछ उस के परमेश्वर यहीवा के लेखे भला २१ और ठीक और सच्चाई का था उसे वह करता था । और जो जो काम उस ने परमेश्वर के भवन में की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया सो उस ने अपना सारा मन लगाकर किया और उस में कृतार्थ हुआ ॥

(सन्हेरीब की सेना को चढाई और निवास)

**३२. इन** बातों और इस सच्चाई के पीछे

अशूर का राजा सन्हेरीब आकर यहूदा में पैठा और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उन में अपने लाभ के लिये नाका करने की आज्ञा २ की । यह देखकर कि सन्हेरीब निकट आया और यरूशलेम से लड़ने की मनसा<sup>१</sup> करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पाटेंगे । और उन्होंने ने उस ४ की सहायता की । सो बहुत से लोग इकट्ठे हुए और यह कहकर कि अशूर के राजा यहां आकर क्यों बहुत पानी पाए सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को ५ सुखा दिया जो देश के बीच होकर बहती थी । फिर हिजकिय्याह ने हियाब बांधकर शहरपनाह जहां कहीं टूटी थी वहां उस को बनवाया और उस को गुम्मतों

(१) मूल में का मुख ।

के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिछो को हड़ किया और बहुत से तीर और ढाहें बनवाई । तब उस ने प्रजा के ऊपर ६ सेनापति ठहराकर उन को नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उन को धीरज बन्धाया कि, हियाब बांधो और हड़ हो तुम न तो अशूर के ७ राजा से डरो न उस के संग की सारी भीड़ से और तुम्हारा मन कच्चा न हो क्योंकि जो हमारे संग है सो उस के संगियों से बड़ा है । अर्थात् उस का सहारा तो ८ मनुष्य ही है<sup>२</sup> पर हमारे संग हमारी सहायता और हमारी और से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहीवा है । सो प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किये रहे ॥

इस के पीछे अशूर का राजा सन्हेरीब जो सारी ९ सेना<sup>३</sup> समेत लाकीश के साम्हने पड़ा था उस ने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम के पास यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यों कहने के लिये भेजा कि, अशूर का राजा सन्हेरीब १० यों कहता है कि तुम किस का भरोसा करते हो । कि तुम धरे हुए यरूशलेम में बैठे रहते हो । क्या हिजकिय्याह ११ तुम से यह कहता हुआ कि हमारा परमेश्वर यहीवा हम को अशूर के राजा के पंजे से बचाएगा तुम्हें नहीं भरमाता कि तुम को भूलों प्यासों मारे । क्या १२ उसी हिजकिय्याह ने उस के ऊंचे स्थान और वैदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के साम्हने दण्डवत् करना और १३ उसी पर धूप जलाना । क्या तुम को मालूम नहीं कि मैं १४ ने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है क्या उन देशों में की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके । जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश १५ किया उन के सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो फिर तुम्हारा देवता तुम को मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा । सो अब १६ हिजकिय्याह तुम को इस रीति भुलाने वा बहकाने न पाए और तुम उस की प्रतीति न करो क्योंकि किसी जाति वा राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से बचा सका न मेरे पुरखाओं के हाथ से सो निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुम को मेरे हाथ से न बचा सकेगा । इस से भी अधिक उस के कर्मचारियों १७ ने यहीवा परमेश्वर की और उस के दास हिजकिय्याह

(२) मूल में उस के संग मांस की बांह । (३) मूल में राज्य ।

- १७ की निन्दा की । फिर उस ने ऐसा एक पत्र भेजा जिस में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निन्दा की ये बातें लिखी थी कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से न बचा सकेगा । और उन्होंने ने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उन को डराकर भभराएँ जिस से नगर की ले लें । और उन्होंने ने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो पृथिवी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर था जो मनुष्यों के बनाये हुए हैं । और इस के कारण राजा हिजकिय्याह और अमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दोहाई दी । तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिस ने अशूर के राजा की छावनी में के सब शूरवीरों प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया सो वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया और जब वह अपने देवता के भवन में था तब उस के निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला । यों यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अशूर के राजा सन्हेरीब और और सभी के हाथ से बचाया और चारों ओर उन की अगुवाई की । और बहुत लोग यरूशलेम को यहोवा के लिये भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिये अनमोल वस्तुएँ ले आने लगे और उस समय से वह सब जातियों के लेखे महान ठहरा ॥
- (हिजकिय्याह का उत्तर चरित्र)
- १४ उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरा चाहता था तब उस ने यहोवा से प्रार्थना की और उस ने उस से बातें करके उस के लिये एक चमत्कार दिखाया ।
- १५ पर हिजकिय्याह ने उस उपाकार का बदला न दिया क्योंकि उस का मन फूल उठा था इस कारण को उस पर और
- १६ यहूदा और यरूशलेम पर भड़का । तौभी हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया सो यहोवा का कोप उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का ॥
- १७ और हिजकिय्याह को बहुत ही धन और विभव मिला और उस ने चाँदी सोने मणियों सुगंधद्रव्य ढालों और सब प्रकार के मनभावने पात्रों के लिये भण्डार बनवाये ।
- १८ फिर उस ने अन्न नये दाखमधु और टटके तेल के लिये भण्डार और सब भक्ति के पशुओं के लिये धान और
- १९ भेड़ बकरियों के लिये भेड़शालाएँ बनवाई । और उस ने नगर बनाये और बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय

बैलों की संपत्ति कर ली क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत धन दिया था । उसी हिजकिय्याह ने गीहोन नाम नदी के ऊपरले समते को पाटकर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर की पच्छिम अलंग को सीधा पहुँचाया और हिजकिय्याह अपने सब कामों में कृतार्थ होता था । तौभी जब बाबेल के हाकिमों ने उस के पास उस के देश में किये हुए चमत्कार के विषय पूछने को दूत भेजे तब परमेश्वर ने उस को इसलिये छोड़ दिया कि उस को परख कर उस के मन का सारा भेद जान ले । हिजकिय्याह के और काम और उस के भक्ति के काम अमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नाम पुस्तक में और यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक में लिखे हैं । निदान हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सोया और उस को दाऊद की सन्तान के कब्रिस्तान की चढ़ाई पर भिड़ी दी गई और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उस की मृत्यु पर उस का आदरमान किया । और उस का पुत्र मनश्शे उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(मनश्शे का राज्य)

### ३३. जब मनश्शे राज्य करने लगा तब

बारह बरस का था और यरूशलेम में पचपन बरस तक राज्य करता रहा । उस ने वह किया जो यहोवा के लेखे हुए हैं उन जातियों के विनौने कामों के अनुसार जिन को यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से देश से निकाल दिया था । उस ने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उस के पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया और बाल नाम देवताओं के लिये वेदियाँ और अशेर नाम मूर्तें बनाई और आकाश के सारे गण को दरइबत् करता और उन की उपासना करता रहा । और उस ने यहोवा के उस भवन में वेदियाँ बनाई जिस के विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा लो बना रहेगा । बरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उस ने आकाश के सारे गण के लिये वेदियाँ बनाई । फिर उस ने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने लड़कैबालों को हॉम करके चढाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मन्ता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओम्ओं और भूतसिद्धिवालों से व्यवहार करता था । बरन उस ने ऐसे बहुत से काम किये जो यहोवा के लेखे हुए हैं और जिन से वह रिसियाता है । और उस ने अपनी खुदवाई हुई मूर्त्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की जिस के विषय परमेश्वर ने दाऊद और उस के पुत्र सुलैमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिस को मैं ने इस्राएल के

सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं सदा लों अपना नाम  
 ८ रभूंगा, और मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैं ने  
 तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उस में से इस्राएल फिर  
 मारा मारा फिरे इतना हां कि वे मेरी सब आशाओं अर्थात्  
 मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों  
 ९ के करने की चौकसी करें। और मनश्शे ने यहूदा और  
 यरूशलेम के निवासियों को यहां लों भटका दिया कि  
 १० उन्हीं ने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा  
 ने इस्राएलियों के साम्हने से विनाश किया था। और  
 यहोवा ने मनश्शे और उस की प्रजा से बातें की पर  
 ११ उन्हीं ने कुछ ध्यान न दिया। सो यहोवा ने उन पर  
 अशूर के राजा के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और वे  
 मनश्शे के नकेल डालकर और पीतल की बेदियां जकड़  
 १२ कर उसे बाबेल को ले गये। तब संकट में पड़कर वह  
 अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा और अपने पितरों  
 के परमेश्वर के साम्हने बहुत दीन हुआ और उस से  
 १३ प्रार्थना की तब उस ने प्रसन्न होकर उस की विनती सुनी  
 और उस को यरूशलेम में पहुंचाकर उस का राज्य फेर  
 दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही  
 परमेश्वर है ॥

१४ इस के पीछे उस ने दाऊदपुर से बाहर गीहोन की  
 पच्छिम ओर नाले में मच्छली फाटक लों एक शहरपनाह  
 बनवाई फिर ओपेल को घेरकर बहुत ऊंचा कर दिया  
 और यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सेनापति ठहरा  
 १५ दिये। फिर उस ने पराये देवताओं को और यहोवा के  
 भवन में की मूर्तियों को और जितनी वेदियां उस ने यहोवा  
 के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थीं उन  
 १६ सब को दूर करके नगर से बाहर फेंका दिया। तब उस  
 ने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल-  
 बलि और धन्यवादबलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को  
 इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की  
 १७ आशा दी। तौभी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलि-  
 दान करते रहे पर केवल अपने परमेश्वर यहोवा के  
 १८ लिये। मनश्शे के और काम और उस ने जो प्रार्थना  
 अपने परमेश्वर से की और उन दर्शियों के वचन जो  
 इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उस से बातें करते  
 थे यह सब इस्राएल के राजाओं के वृत्तान्त में लिखा हुआ  
 १९ है। और उस की प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई और  
 उस का सारा पाप और विश्वासघात और उस ने दीन  
 होने से पहिले कहां कहां ऊंचे स्थान बनवाये और अशेरा  
 नाम और खुदी हुई मूर्तियां खड़ी कराईं यह सब होज  
 २० के वचनों में लिखा है। निदान मनश्शे अपने पुरखाओं

के संग सोया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी गई और  
 उस का पुत्र आमोन उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(आमोन का राज्य)

जब आमोन राज्य करने लगा तब वह बाईस बरस २१  
 का था और यरूशलेम में दो बरस लों राज्य करता रहा।  
 और उस ने अपने पिता मनश्शे की नाईं वह किया जो २२  
 यहोवा के लेखे बुरा है और जितनी मूर्तियां उस के पिता  
 मनश्शे ने खोदकर बनवाई थीं वह उन सबों के साम्हने  
 बलिदान और उन सबों की उपासना करता था। और २३  
 जैसे उस का पिता मनश्शे यहोवा के साम्हने दीन हुआ  
 वैसे वह दीन न हुआ बरन यह आमोन अधिक दौषी  
 होता गया। और उस के कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी २४  
 करके उस को उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण २५  
 लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन  
 से द्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उस के पुत्र  
 योशिय्याह को उस के स्थान पर राजा किया ॥

(योशिय्याह का किया हुआ श्चराव और  
 व्यवस्था की पुस्तक का मिलना)

३४. जब योशिय्याह राज्य करने लगा  
 तब आठ बरस का था और

यरूशलेम में एकतीस बरस तक राज्य करता रहा। उस २  
 ने वह किया जो यहोवा के लेखे ठीक है और जिन मार्गों  
 पर उस का मूलपुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह  
 भी चला और उस से न तो दहिनी ओर मुड़ा और न  
 बाईं ओर। वह लड़का ही था अर्थात् उस को गद्दी पर ३  
 बैठे आठ बरस पूरे न हुए थे कि अपने मूलपुरुष दाऊद  
 के परमेश्वर की खोज करने लगा और बारहवें बरस में  
 वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नाम मूर्तियों को और खुदी  
 और ढली हुई मूर्तियों को दूर करके यहूदा और यरूश-  
 लेम को शुद्ध करने लगा। और बालदेवताओं की वेदियां ४  
 उस के साम्हने तोड़ डाली गईं और सूर्य की प्रतिमायें  
 जो उन के ऊपर ऊंचे पर थीं उस ने काट डालीं और  
 अशेरा नाम और खुदी और ढली हुई मूर्तियों को उस ने  
 तोड़कर पीस डाला और उन की बुकनी उन लोगों की  
 कबरों पर छितरा दी जो उन को बलि चढ़ाते थे। और ५  
 पुजारियों की हड्डियां उस ने उन्हीं की वेदियों पर जलाईं।  
 यों उस ने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर ६  
 मनश्शे एप्रैम और शिमोन के बरन नसाली तक के नगरों  
 के खण्डहरों में, उस ने वेदियों को तोड़ डाला और ७  
 अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तियों को पीसकर बुकनी कर  
 डाला और इस्राएल के सारे देश में की सूर्य की सब  
 प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया ॥



८ फिर अपने राज्य के अठारहवें बरस में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका तब उस ने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासेयाह और योआहाज के पुत्र इतिहास के लिखनेहारे योआह को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के ९ लिये भेज दिया । सो उन्होंने ने हिल्कियाह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था अर्थात् जो लेवीय डेवढीदारों ने मनशिशयें एप्रैमियों और सब बचे हुए इस्राएलियों से और सब यहूदियों और किन्यामोनियों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से १० लेकर इकट्ठा किया था, उस को सौंप दिया अर्थात् उन्होंने ने उसे उन काम करनेहारों के हाथ सौंप दिया जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिये थे और यहोवा के भवन के उन काम करनेहारों ने उसे भवन में जो कुछ टूटा फूटा ११ या उस की मरम्मत करने में लगाया । अर्थात् उन्होंने ने उसे बढइयों और राजों को दिया कि वे गढ़े हुए पत्थर और जोड़े के लिये लकड़ी मोल लें और उन घरों को १२ पाटों जो यहूदा के राजाओं ने नाश कर दिये थे । और वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे और उन के अधिकारी मरारीय यहत और ओबटाह लेवीय और कहाती जकर्याह और मशुल्लाम काम चलानेहारे और गाने बजाने का भेद १३ सब जाननेहारे लेवीय भी थे । फिर वे बोकियों के अधिकारी थे और भान्ति भान्ति की सेवकाई और काम चलानेहारे थे और कुछ लेवीय मुन्शी सरदार और डेवढीदार थे ॥ १४ अब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे तब हिल्कियाह याजक को भूषा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक १५ मिली । तब हिल्कियाह ने शापान मंत्री से कहा मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है सो १६ हिल्कियाह ने शापान को वह पुस्तक दी । तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेश दिया कि जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था १७ उसे वे कर रहे हैं । और जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उस को उन्होंने ने उण्डेलकर मुखियों और कारीगरों १८ के हाथों में सौंप दिया है । फिर शापान मंत्री ने राजा को वह भी बता दिया कि हिल्कियाह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है तब शापान ने उस में से राजा को पढ़कर १९ सुनाया । व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने २० बखर फाड़े । फिर राजा ने हिल्कियाह शापान के पुत्र झकीकाम मीका के पुत्र अब्दीन शापान मंत्री और असा- २१ साह नाम अपने कर्मचारी को आज्ञा दी कि, तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल और यहूदा में रहे हुआ की

ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिये भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन न माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाएं न पाली थीं । सो हिल्कियाह ने राजा के और और दूतों २२ समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उस से उसी बात के अनुसार बातें कीं वह तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हसा का पोता और बन्नालय का रखवाला था और वह स्त्री यरूशलेम के नये टोले में रहती थी । उस ने उन से कहा इस्राएल का परमेश्वर २३ यहोवा यों कहता है कि, जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास भेजा उस से यह कहो कि, यहोवा यों कहता है कि सुन २४ मैं इस स्थान और इस के निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के साम्हने जो पुस्तक पढ़ी गई उस में जितने खाल लिखे हैं उन सभी को पूरा करूंगा । उन २५ लोगों ने मुझे त्याग करके पराये देवताओं के लिये धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी । पर यहूदा २६ का राजा जिस ने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया उस से तुम यों कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि इसलिये कि २७ वे बातें सुनकर, दीन हुआ और परमेश्वर के साम्हने अपना सिर नवाया और उस की बातें सुनकर जो उस ने इस स्थान और इस के निवासियों के विरुद्ध कहीं तू ने मेरे साम्हने अपना सिर नवाया और बख फाड़कर मेरे साम्हने रोया है इस कारण मैं ने तेरी सुनी है यहोवा की यही वाणी है । सुन मैं तुम्हें २८ तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कबर को पहुंचाया जायगा और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इस के निवासियों पर डाला चाहता हूं उस में से तुम्हें अपनी आंखों से कुछ देखना न पड़ेगा तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यही संदेशा दिया ॥

तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों २९ को इकट्ठे होने का बुलवा भेजा । और राजा यहूदा के ३० सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवीयों बरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया तब उस ने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उस में की सारी बातें उन को पढ़कर सुनाईं । तब राजा ने अपने स्थान ३१ पर खड़ा होकर यहोवा से इस आज्ञाय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे जीव से उस की आज्ञाएं चिंतोनियां और

विधियां पाला करुंगा और इस वाचा की बातों को जो  
 ३२ इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करुंगा । और उस ने उन  
 सभी से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वाचा  
 बन्धाई । और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उन के  
 पितरों का परमेश्वर था उस की वाचा के अनुसार करने  
 ३३ लगे । और योशियाह ने इस्राएलियों के सब देशों में से  
 सब धनीनी वस्तुओं को वूर करके जितने इस्राएल में मिले  
 उन सभी से उपासना कराई अर्थात् उन के परमेश्वर यहोवा  
 की उपासना कराई । सो उस के जीवन भर उन्हों ने अपने  
 पितरों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा ॥

(योशियाह का किया हुआ फसह)

३५. और योशियाह ने यरूशलेम में  
 यहोवा के लिये फसह माना

और पहिले महीने के चौदहवें दिन को फसह का पशु बलि  
 २ किया गया । और उस ने याजकों को अपने अपने काम में  
 ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उन  
 ३ का हियाव बन्धाया । फिर लेवीय जो सब इस्राएलियों को  
 सिखाते और यहोवा के लिये पवित्र ठहरे थे उन से उस ने  
 कहा तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद  
 के पुत्र इस्राएल के राजा सुलैमान ने बनवाया था  
 अब तुम को कंधों पर बोझ उठाना न होगा सो अब  
 अपने परमेश्वर यहोवा की और उस की प्रजा इस्राएल  
 ४ की सेवा करो । और इस्राएल के राजा दाऊद और उस  
 के पुत्र सुलैमान दोनों की लिखी हुई विधियों के अनुसार  
 अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने  
 ५ दल में तैयार रहे । और तुम्हारे भाई लोगों के पितरों  
 के घरानों के भागों के अनुसार पवित्रस्थान में खड़े रहे  
 अर्थात् उन के एक भाग के लिये लेवीयों के एक एक पितर के  
 ६ घराने का एक भाग हो । और फसह के पशुओं को बलि  
 करो और अपने अपने को पवित्र करके अपने भाइयों के  
 लिये तैयारी करो कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार  
 ७ कर सकें जो उस ने मूसा के द्वारा कहा था । फिर योशियाह  
 ने सब लोगों के जो वहाँ हाजिर थे तीस हजार भेड़ों और  
 बकरियों के बच्चों और तीन हजार बैल दिये थे सब फसह  
 के बलिदानों के लिये और राजा की संपत्ति में से दिये  
 ८ गये । और उस के हाकिमों ने प्रजा के लोगों याजकों  
 और लेवीयों को स्वेच्छाबलियों के लिये पशु दिये । और  
 हिल्किया बकर्याह और यहीएल नाम परमेश्वर के  
 भवन के प्रधानों ने याजकों को दो हजार छः सौ भेड़  
 बकरियाँ और तीन सौ बैल फसह के बलिदानों के लिये  
 ९ दिये । और कोनन्याह ने और शमायाह और नतनेल जो  
 उस के भाई थे और हसन्याह यीएल और योजाबाद नाम

लेवीयों के प्रधानों ने लेवीयों को पाँच हजार भेड़ बकरियाँ  
 और पाँच सौ बैल फसह के बलिदानों के लिये दिये । ये  
 १० उपासना की तैयारी हो गई और राजा की आज्ञा के  
 अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर और लेवीय अपने  
 अपने दल में खड़े हुए । तब फसह के पशु बलि किये  
 ११ गये और याजक बलि करनेहारों के हाथ से लोह का लेकर  
 छिड़क देते और लेवीय उन की खाल उतारते गये । तब  
 १२ उन्हें ने होमबलि के पशु इसलिये अलग किये कि उन्हें  
 लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दें कि वे  
 उन्हें यहोवा के लिये चढवा दें जैसे कि मूसा की पुस्तक  
 में लिखा है और बैलों को भी उन्हें ने वैसा ही किया ।  
 तब उन्हें ने फसह के पशुओं का मांस विधि के अनुसार  
 १३ आग में भुंजा और पवित्र वस्तुएं हंडियों और हंडों और  
 थालियों में सिभा कर फुर्ती से लोगों को पहुँचा दिया ।  
 और पीछे उन्हें ने अपने लिये और याजकों के लिये तैयारी  
 १४ की क्योंकि हारून की सन्तान के याजक होमबलि के पशु  
 और चरबी रात लो चढ़ाते रहे इस कारण लेवीयों ने  
 अपने लिये और हारून की सन्तान के याजकों के लिये  
 तैयारी की । और आसाप के वंश के गवैये दाऊद  
 १५ आसाप हेमान और राजा के दर्शी यदून की आज्ञा के  
 अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे और डेवडीदार एक  
 एक फाटक पर रहे उन्हें अपना अपना काम छोड़ना न  
 पड़ा क्योंकि उन के भाई लेवीयों ने उन के लिये तैयारी  
 की । यों उसी दिन राजा योशियाह की आज्ञा के  
 १६ अनुसार यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई  
 कि फसह मानना और यहोवा की वेदी पर होमबलि  
 चढ़ाना हो सका । सो जो इस्राएली वहाँ हाजिर थे उन्हें  
 १७ ने फसह को उसी समय और अखमीरी रोटी के पर्व  
 को सात दिन तक माना । इस फसह के बराबर शमू-  
 १८ एल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह माना न  
 गया था और न इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा माना  
 जैसा योशियाह और याजकों लेवीयों और जितने  
 यहूदी और इस्राएली हाजिर थे उन्हें ने और यरूशलेम  
 के निवासियों ने माना । यह फसह योशियाह के  
 १९ राज्य के अठारहवें बरस में माना गया ॥

(योशियाह की मृत्यु)

इस सत्र के पीछे जब योशियाह भवन की तैयार  
 २० कर चुका तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के  
 कर्कमीश नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशियाह  
 उस का साम्हना करने को गया । पर उस ने उस के  
 २१ पास दूर्ती से कहला भैया कि हे यहूदा के राजा मेरा  
 दुश्म से क्या काम आज मैं तुम्ह पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई

कर रहा हूँ जिस के साथ मैं युद्ध करता हूँ फिर परमेश्वर ने मुझ से कुर्ती करने को कहा है सो। परमेश्वर जो मेरे संग है उस से अलग रह ऐसा न हो कि वह तुम्हें नाश करे। पर योशियाह ने उस से मुँह न मोड़ा वरन उस से लड़ने के लिये मेष बदला और नको के उन बच्चों को न माना जो उस ने परमेश्वर की ओर से कहे थे और मगिहो की तराई में उस से युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा योशियाह की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपने सेवकों से कहा मैं तो बहुत घायल हुआ सो मुझे यहाँ से ले जाओ। तब उस के सेवकों ने उस को रथ पर से उतारकर उस के दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम को ले गये और वह मर गया और उस के पुरखाओं के कब्रिस्तान में उस को मिट्टी दी गई और यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशियाह के लिये विलाप किया। और यिर्मयाह ने योशियाह के लिये विलाप का गीत बनाया और सब गानेदारे और गानेहारियाँ अपने विलाप के गीतों में योशियाह की चर्चा आज तक करती हैं और इन का गाना इस्राएल में विधि करके उहराया गया और ये बातें विलापगीतों में लिखी हुई हैं। योशियाह के और काम और भक्ति के जो काम उस ने उसी के अनुसार किये जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, और आदि से अन्त लों उस के सब काम इस्राएल और यहूदा के राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक में लिखे हुए हैं ॥

(यहोआहाज यहोयाकीम यहोयाकीन और सिदकियाह के राज्य)

### ३६. तब देश के लोगों ने योशियाह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उस के

२ पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा किया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह तेईस बरस का था और तीन महीने लों यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उस को यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया और देश पर सौ किकार चान्दी और किकार भर सोना खुरमाना लगाया। तब मिस्र के राजा ने उस के भाई एश्याकीम को यहूदा और यरूशलेम पर राजा किया और उस का नाम बदलकर यहोयाकीम रखवा। और नको उस के भाई यहोआहाज को मिस्र में ले गया ॥

५ जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह पचीस बरस का था और ग्यारह बरस तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उस ने वह काम किया जो उस के परमेश्वर यहोवा के लेखे बुरा है। उस पर बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बाबेल ले जाने के लिये उस के बैड़ियाँ डाल दीं। फिर नबूकदनेस्सर

ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बाबेल ले जाकर अपने मन्दिर में जो बाबेल में था रख दिये। यहोयाकीम के और काम और उस ने जो जो धिनौने काम किये और उस में जो जो बुरायाँ पाई गईं सो इस्राएल और यहूदा के राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक में लिखी हैं। और उस का पुत्र यहोयाकीन उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह आठ बरस का था और तीन महीने और दस दिन लों यरूशलेम में राज्य करता रहा और उस ने वह किया जो परमेश्वर यहोवा के लेखे बुरा है। नये बरस के लगते ही नबूकदनेस्सर ने भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मनभावने पात्रों को बाबेल में पहुँचा दिया और उस के भाई सिदकियाह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा किया ॥

जब सिदकियाह राज्य करने लगा तब वह इक्कीस बरस का था और यरूशलेम में ग्यारह बरस लों राज्य करता रहा। और उस ने वही किया जो उस के परमेश्वर यहोवा के लेखे बुरा है यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तौभी वह उस के साम्हने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर जिस ने उसे परमेश्वर की किरिया खिलाई थी उस से उस ने बलब किया और उस ने हठ किया और अग्ना मन कठोर किया कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को और न फिरे ॥

(यहूदियों की बंधुवाई)

वरन सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से धिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उस ने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। और उन के पितरों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उन के पास कहला मेजा क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। पर वे परमेश्वर के वृत्तों को उठों में उड़ाते उस के वचनों को तुच्छ जानते और उस के नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा भुंभला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। सो उस ने उन पर क्रूरियों के राजा से चढ़ाई कराई और इस ने उन के जवानों को उन के पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला और क्या जवान क्या कंबारी क्या बूढ़े क्या पक्के बालवाले किसी पर भी कोमलता न की यहोवा ने सभी को उस के हाथ कर दिया। और क्या छोटे क्या बड़े

(१) मूल में अपनी गर्दन कठोर की।

(२) मूल में तबके उठ उठकर।

परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उस के हाकिमों के खजाने इन सबों १९ को वह बाबेल में ले गया। और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उस में के सब भवनों को जलाया और उस में का सारा मनभावना सामान २० नाश किया। और जो तलवार से बच गये उन्हें वह बाबेल को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने लो वे उस के और उस के बेटों पीतों के अधीन रहे। २१ यह सब इसलिये हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था सो पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे सो जब लो वह सुना पड़ा रहा तब लो अर्थात् सत्तर बरस के पूरे होने लो उस को विश्राम रहा ॥

(बहदियों का फिर भाग्यवान होना)

फारस के राजा कुसू के पहिले बरस में यहोवा २२ ने उस के मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था सो पूरा हो सो उस ने अपने सारे राज्य में यह प्रचार कराया और इस आशय की चिट्ठियां लिखाई कि, फारस का राजा कुसू यो कहता है कि २३ स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने तो पृथिवी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी कि यरूशलेम जो यहूदा में है मेरा एक भवन बनवा सो हे उस की सारी प्रजा के लोगो तुम में से जो कोई चाहे उस का परमेश्वर यहोवा उस के संग रहे और वह वहां जाए ॥

(१) मून में चदे ।

## एज्रा नाम पुस्तक ।

(बन्धुप यहूदियों का यरूशलेम को लौट जाना)

१. फारस के राजा कुसू के पहिले बरस में यहोवा ने फारस के राजा कुसू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था सो पूरा हो जाए सो उस ने अपने सारे राज्य में यह प्रचार कराया और लिखा भी २ दिया कि, फारस का राजा कुसू यो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथिवी भर का राज्य मुझे दिया है और उस ने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उस की सारी प्रजा के लोगो में से तुम्हारे बीच जो कोई हो उस का परमेश्वर उस के संग रहे और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य चान्दी सोना धन और पशु देकर उस की सहायता करें और इस से अधिक परमेश्वर के यरूशलेम में के भवन के लिये अपनी अपनी ह्छा से भी भेंट करें। तब यहूदा और बिन्यामीन के सितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और राजको और लेवीयो का मन परमेश्वर ने उभारा

कि जाकर यहोवा के यरूशलेम में के भवन को बनाएं सो सब उठ खड़े हुए। और उन के आसपास सब रहने- ६ वालो ने चान्दी के पात्र सोना धन पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उन की सहायता की यह उस सब से अधिक था जो लोगो ने अपनी अपनी ह्छा से दिया। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने ७ यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे उन को कुसू राजा ने, मिथूदात खजांची से निकलवा कर यहूदियों के शैशबस्सर नाम प्रधान को गिनकर सौंप दिया। उन की गिनती यह थी अर्थात् सोने के तीस ९ और चान्दी के एक हजार परात और उनतीस कुरी, सोने के तीस और मध्यम प्रकार के चांदी के चार सौ १० दस कठोरे और और प्रकार के पात्र एक हजार। सोने ११ चांदी के पात्र सब मिलकर पांच हजार चार सौ हुए। इन सबों को शैशबस्सर उस समय ले आया जब बंधुप बाबेल से यरूशलेम को आये ॥

(लौटे हुए यहूदियों का च्योरा)

२. जिन को बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंधुआ करके ले गया था उन में से प्रान्त के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम

और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे सो ये हैं । ये जरुशबबेल येशू नहेम्याह सराथाह रेखायाह मीर्दके विलशान मिस्त्रार बिग्वै रहूम और बाना के संग आये । २ इस्राएली प्रजा के मनुष्यों की यह गिनती है अर्थात्, ३, ४ परेश के सन्तान दो हजार एक सौ बहत्तर, शपत्याह ५ के सन्तान तीन सौ बहत्तर, आरह के सन्तान सात सौ ६ पछहत्तर, पहत्तोआव के सन्तान येशू और बोआव की ७ सन्तान में से दो हजार आठ सौ बारह, एलाम के ८ सन्तान बारह सौ चौवन, जत्तू के सन्तान नौ सौ ९, १० पैतालीस, जम्के के सन्तान सात सौ साठ, बानी के ११ सन्तान छः सौ बयालीस, बेथे के सन्तान छः सौ १२, १३ तेईस, अजगाद के सन्तान बारह सौ बाईस, अदोनीकाम १४ के सन्तान छः सौ छियासठ, बिग्वै के सन्तान दो हजार १५, १६ छप्पन, आदीन के सन्तान चार सौ चौवन, यहिज- १७ किय्याह के सन्तान आतेर की सन्तान में से अट्टानवे, बेसै १८ के सन्तान तीन सौ तेईस, योरा के लोग एक सौ बारह, १९, २० हाशूम के लोग दो सौ तेईस, गिम्बार के लोग २१, २२ पंचानवे, बेतलेहेम के लोग एक सौ तेईस, नतेपा २३ के मनुष्य छप्पन, अनातोत के मनुष्य एक सौ अट्टाईस, २४, २५ अम्मावेत के लोग बयालीस, किर्यतारीम कपीरा २६ और वेरोत के लोग सात सौ तैतालिस, रामा और गेवा २७ के लोग छः सौ इक्कीस, मिकमास के मनुष्य एक सौ २८, २९ बाईस, बेतेल और ऐ के मनुष्य दो सौ तेईस, नबां ३० के लोग बावन, मग्बीस के सन्तान एक सौ छप्पन, ३१, ३२ दूसरे एलाम के सन्तान बारह सौ चौवन, हारीम के ३३ सन्तान तीन सौ बीस, लोद हादीद और ओनो के लोग ३४ सात सौ पचीस, यरीहो के लोग तीन सौ पैतालीस, ३५, ३६ सना के लोग तीन हजार छः सौ तीस । फिर याजकों अर्थात् येशू के घराने में से यदाथाह के सन्तान ३७ नौ सौ तिहत्तर, इम्मेर के सन्तान एक हजार बावन, ३८, ३९ पशहूर के सन्तान बारह सौ सैतालीस, हारीम के सन्तान ४० एक हजार सतरह । फिर लेवीय अर्थात् येशू के सन्तान और कदमिएल के सन्तान होदब्याह की सन्तान में से ४१ चौहत्तर । फिर गवैथो में से आसाप के सन्तान एक सौ ४२ अट्टाईस । फिर डेवढीदारों के सन्तान, शल्लूम के सन्तान आतेर के सन्तान तल्मेन के सन्तान अम्कूब के सन्तान हतीता के सन्तान और शोथै के सन्तान ये सब मिलकर ४३ एक सौ उनतालीस हुए । फिर नतीन के सन्तान सीहा ४४ के सन्तान इसपा के सन्तान तम्बाओत के सन्तान । केरोस ४५ के सन्तान सीअहा के सन्तान पावेन के सन्तान, लवाना ४६ के सन्तान हगाबा के सन्तान अम्कूब के सन्तान, हागाब ४७ के सन्तान शमलै के सन्तान हानान के सन्तान, गिदल

के सन्तान गहर के सन्तान राथाह के सन्तान, रसीन के सन्तान ४८ नकोदा के सन्तान गज्जाम के सन्तान, उब्जा के सन्तान ४९ पासेह के सन्तान बेसै के सन्तान, अस्ना के सन्तान मूनीम ५० के सन्तान नपीसीम के सन्तान, बकषुक के सन्तान इकूपा ५१ के सन्तान हहूर के सन्तान, बसलूत के सन्तान महादा ५२ के सन्तान हर्शा के सन्तान, बर्कोस के सन्तान खीसरा के ५३ सन्तान तेमह के सन्तान, नसीह के सन्तान और हतीपा ५४ के सन्तान । फिर मुलैमान के दासों के सन्तान सोतै के ५५ सन्तान हस्सोपेरेत के सन्तान परूदा के सन्तान, याला ५६ के सन्तान दर्कोन के सन्तान गिदेल के सन्तान, शम्याह ५७ के सन्तान हत्तिल के सन्तान पोकरेतसबायीम के सन्तान और आमी के सन्तान । सब नतीन और मुलैमान के ५८ दासों के सन्तान तीन सौ बावन थे ॥

फिर जो तेलमेलह तेलहर्शा करुब अहान और इम्मेर ५९ से आये पर वे अपने अपने पितर के घराने और वंशावली<sup>१</sup> न बता सके कि इस्राएल के हैं सो ये हैं, अर्थात् दला- ६० याह के सन्तान तोबिय्याह के सन्तान और नकोदा के सन्तान जो मिलकर छः सौ बावन थे । और याजकों की सन्तान ६१ में से हबायाह के सन्तान हक्कोस के सन्तान और बर्जिल्लै के सन्तान जिस ने गिलादी बर्जिल्लै की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था । इन ६२ सभी ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों को वंशावली की पोथियों में ढूंढा पर वे न मिले इसलिये वे अशुद्ध ठहराकर याजकपद से निकाले गये । और अधिपति<sup>२</sup> ने ६३ उन से कहा कि जब लो ऊरीम और तुम्मीम धारण करनेहारा कोई याजक न हो तब लो तुम कोई परमपवित्र वस्तु खाने न पाओगे ॥

सारी मण्डली मिलकर बयालीस हजार तीन सौ ६४ साठ की थी । इन को छोड़ इन के सात हजार तीन ६५ सौ सैतीस दास दासियां और दो सौ गानेवाले और गानेवालियां थीं । उन के बोड़े सात सौ छत्तीस खच्चर दो ६६ सौ पैतालीस, ऊंट चार सौ पैतीस और गदहे छः हजार ६७ सात सौ बीस थे । और पितरों के घरानों के कुछ मुख्य ६८ मुख्य पुरुषों ने जब यहोबा के यरुशलेम में के भवन को आये तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान में खड़ा करने के लिये अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया । उन्होंने ने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार इकठ ६९ हजार दर्कमोन सोना और पांच हजार माने चांदी और याजकों के योग्य एक सौ अंगरसे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिये । सो याजक और लेवाय ७० और लोगों में से कुछ और गवैथे और डेवढीदार और

(१) मूल में वंश । (२) मूल में तिराता ।

नतीन लोग अपने अपने नगर में और सब इस्राएली अपने अपने नगर में फिर बस गये ॥

(वेदी का बनाया जाना)

### ३. जब सातवां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस थे तब

- २ लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए । तब अपने भाई याजकी समेत योसादाक के पुत्र येशू ने और अपने भाइयों समेत शालतीएल के पुत्र जरब्बाबेल ने कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होमबलि चढ़ाएं जैसे कि परमेश्वर के जन मूसा
- ३ की व्यवस्था में लिखा है । सो उन्होंने वेदी को उस के स्थान पर खड़ा किया क्योंकि उन्हें देश देश के लोगों का भय रहा सो वे उस पर यहोवा के लिये होमबलि अर्थात् दिन दिन सवेरे और सांभ के होमबलि चढ़ाने
- ४ लगे । और उन्होंने भाँपड़ियों के पर्व को माना जैसे कि लिखा है और दिन दिन के होमबलि एक एक दिन
- ५ की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाये । और उस के पीछे नित्य होमबलि और नये नये चान्द और यहोवा के पवित्र किये हुये सब नियत पर्वों के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिये सब स्वेच्छाबलि देनेहारों
- ६ के बलि चढ़ाये । सातवें महीने के पहिले दिन से वे यहोवा को होमबलि चढ़ाने लगे परन्तु यहोवा के
- ७ मन्दिर की नेव तब लो न डाली गई थी । सो उन्होंने पत्थर गढ़नेहारों और कारीगरों को रुपया और सीदानी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा कुसू के परवाने के अनुसार देवदार की लकड़ी लभानोन से थापो के पास के समुद्र में पहुँचाएं ॥

(मन्दिर की नेव का डाला जाना)

- ८ परमेश्वर के यरूशलेम में के भवन को आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने में शालतीएल के पुत्र जरब्बाबेल ने और योसादाक के पुत्र येशू ने और उन के और भाइयों ने जो याजक और लेवाय थे और जितने बन्धुभाई से यरूशलेम में आये थे उन्होंने भी काम का आरम्भ किया और बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था के लेवीयों
- ९ को यहोवा के भवन का काम चलाने को ठहराया । सो येशू और उस के बेटे और भाई और कदमीएल और उस के बेटे जो यहूदा के सन्तान थे और हेनादाद के सन्तान और उन के बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों
- १० का काम चलाने को खड़े हुये । और जब राजों ने यहोवा के मन्दिर की नेव डाली तब अपने बल्ल पहिने हुए और तुरहिया लिये हुए याजक और भाँक लिये हुये आसाप

के बंश के लेवीय इलिये ठहराये गये कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति<sup>१</sup> के अनुसार यहोवा की स्तुति करें । सो वे यह गा गाकर यहोवा की स्तुति १२ और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है और उस की करुणा इस्राएल पर सदा की है । और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नेव अब पड़ रही है ऊँचे शब्द से जयजयकार किया । परन्तु बहुतेरे याजक और लेवीय और १२ पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात् वे बूढ़े जिन्होंने पहिला भवन देखा था जब इस भवन की नेव उन की आँखों के साम्हने पड़ी तब फूट फूटकर रोये और बहुतेरे आनन्द के मारे ऊँचे शब्द से जयजयकार कर रहे थे । सो लोग आनन्द के जयजयकार का शब्द लोगों के रोने १३ के शब्द से अलग पहिचान न सके क्योंकि लोग ऊँचे शब्द से जयजयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर लों सुनाई देता था ॥

(यहूदियों के शत्रुओं से मन्दिर के बनने का रोका जाना)

### ४. जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बन्धुभाई से छूटे हुए

लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये मन्दिर बना रहे हैं, तब वे जरब्बाबेल और पितरों के घरानों के मुख्य २ मुख्य पुरुषों के पास आकर उन से कहने लगे हमें भी अपने संग बनाने दो क्योंकि तुम्हारी नाइ हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हैं और अशूर का राजा एसर्हदोन जिस ने हमें यहां पहुँचाया उस के दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते हैं । जरब्बाबेल येशू और ३ इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उन से कहा हमारे परमेश्वर के लिये भवन बनाने में तुम को हम से कुछ काम नहीं हम ही लोग एक संग हँकर फारस के राजा कुसू की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये उसे बनाएंगे । तब उस देश ४ के लोग यहूदियों के हाथ ढाले करने और उन्हें डराकर बनाने में रोकने लगे, और रुपए देकर उन का विरोध ५ करने को वकील करके फारस के राजा कुसू के जीवन भर बरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय लों यहूदियों की युक्ति निष्फल कर रखी ॥

तृतीय के राजा के पहिले दिनों में तो उन्होंने ने यहूदा ६ और यरूशलेम के निवासियों का दोषपत्र लिख मेजा । फिर अर्तक्षत्र के दिनों में विशलाम मिथदात और ७ तबेल ने अपने और सहचारियों समेत फारस के राजा अर्तक्षत्र को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी अरामी अक्षरों और

(१) मूल में दाऊद के हाथ ।

८ अगामी भाषा में लिखी गई । अर्थात् रहुम राजमंत्री और शिमशै मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्तक्षत्र को  
 ९ इस आशय की चिट्ठी लिखी । उस समय रहुम राजमंत्री और शिमशै मंत्री और उन के और सहचारियों ने अर्थात्  
 १० शीनी अमसंतकी तर्पली अफारसी एरेकी बाबेली शूशानी  
 ११ देहवी पलाभी, आदि जातियों ने जिन्हें महान और प्रधान  
 १२ ओस्नप्पर ने पार ले आकर शोमरोन नगर में और  
 १३ महानद के इस पार के शेष देश में बसाया एक चिट्ठी  
 १४ लिखी इत्यादि । जो चिट्ठी उन्होंने अर्तक्षत्र राजा को  
 १५ लिखी उस की यह नकल है तेरे दास जो महानद के  
 १६ पार के मनुष्य हैं इत्यादि । राजा को यह विदित हो कि  
 १७ जो यहूदी तेरे पास से चले आये सो हमारे पास यरूश-  
 १८ लेम को पहुँचे हैं वे उस दंगैत और घिनौने नगर को  
 १९ बसा रहे हैं वरन उस की शहरपनाह को खड़ा कर चुके  
 २० और उस की नेव को जोड़ चुके हैं । अब राजा को  
 २१ विदित हो कि यदि वह नगर बसाया जाए और उस की  
 २२ शहरपनाह बन चुके तो वे लोग कर चुंगी और राहदारी  
 २३ फिर न देंगे और अन्त में राजाओं की हानि होगी । हम  
 २४ लोग तो राजमन्दिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं  
 २५ कि राजा का अनादर हमारे देखते हो इस कारण हम यह  
 २६ चिट्ठी भेजकर राजा को चिन्ता देते हैं, इसलिये कि तेरे  
 २७ पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए तब  
 २८ इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह  
 २९ नगर बलवा करनेवाला और राजाओं और प्रान्तों की  
 ३० हानि करनेवाला है और प्राचीन काल से उस में बलवा  
 ३१ मचता आया है और इस कारण वह नगर नाश भी  
 ३२ किया गया । हम राजा को चिन्ता रखते हैं कि यदि वह  
 ३३ नगर बसाया जाए और उस की शहरपनाह बन चुके तो  
 ३४ इस कारण से महानद के इस पार तेरा कोई भाग न रह  
 ३५ जाएगा । तब राजा ने रहुम राजमंत्री और शिमशै मंत्री  
 ३६ और शोमरोन और महानद के इस पार रहनेवाले उन के  
 ३७ और सहचारियों के पास यह उत्तर भेजा कि कुशल इत्यादि ।  
 ३८ जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी सो मेरे साम्हने  
 ३९ पढ कर साफ साफ सुनाई गई । और मेरी आज्ञा से खोज  
 ४० किये जाने पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीनकाल से  
 ४१ राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया और उस में दंगा  
 ४२ और बलवा होता आया है । यरूशलेम के सामर्थी राजा  
 ४३ भी हुए जो महानद के पार के सारे देश पर राज्य करते  
 ४४ थे और कर चुंगी और राहदारी उन को दी जाती थी ।  
 ४५ सो अब आज्ञा प्रचारो कि वे मनुष्य रोके जाएँ और जब  
 ४६ लो मेरी और से आज्ञा न मिले तब लो वह नगर बनाया  
 ४७ न जाए । और चौकस रहो कि इस बात में ढीले न होना

राजाओं की हानि करनेवाली वह बुराई क्यों बढने पाए ।  
 जब राजा अर्तक्षत्र की यह चिट्ठी रहुम और शिमशै मंत्री २३  
 और उन के सहचारियों को पढ़कर सुनाई गई तब वे  
 उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गये और  
 भुजबल और बरियाई से उन को रोक दिया । तब पर- २४  
 मेश्वर के यरूशलेम में के भवन का काम रुक गया और  
 फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे बरस लो रुका रहा ॥

(मन्दिर के बनने का राजा की आज्ञा से निपटाया जाना)

५. तब हागो नाम नबी और इहो का पोता  
 जकर्याह यहूदा और यरूशलेम के  
 यहूदियों से नबूवत करने लगे इस्त्राएल के परमेश्वर के  
 नाम से उन्होंने उन से नबूवत की । सो शालतीएल का २  
 पुत्र जरुन्थाबेल और योसादाक का पुत्र येशू कमर बान्ध  
 कर परमेश्वर के यरूशलेम में के भवन को बनाने लगे  
 और परमेश्वर के वे नबी उन का साथ देते रहे । उसी समय ३  
 महानद के इस पार का तत्तनै नाम अधिरति और  
 शतबोजनै अपने सहचारियों समेत उन के पास जाकर  
 यो पूछने लगे कि इस भवन के बनाने और इस शहर-  
 पनाह के खड़े करने की किस ने तुम को आज्ञा दी है ।  
 तब हम लोगों ने उन से यह कहा कि इस भवन के बनाने ४  
 वालों के क्या क्या नाम हैं । परन्तु यहूदियों के पुरनियों  
 के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही सो जब लो इस बात की  
 चर्चा दारा से न की गई और इस के विषय चिट्ठी के  
 द्वारा उत्तर न मिला तब लो उन्होंने ने इन को न रोका ॥  
 जो चिट्ठी महानद के इस पार के अधिपति तत्तनै ५  
 और शतबोजनै और महानद के इस पार के उन के  
 सहचारी अपासकियों ने राजा दारा के पास भेजी  
 उस की नकल यह है । उन्होंने ने उस को एक चिट्ठी ६  
 लिखी जिस में यह लिखा था कि राजा दारा का कुशल  
 क्षेम सब प्रकार से है । राजा को विदित हो कि हम ८  
 लोग यहूदा नाम प्रान्त में महान परमेश्वर के भवन के  
 पास गये थे वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और  
 उस की भीतों में कड़ियां जुड़ रही हैं और यह काम उन  
 लोगों से कुर्तियों के साथ हो रहा और सुफल भी हो  
 जाता है । सो हम ने उन पुरनियों से यो पूछा कि यह ९  
 भवन बनवाने और यह शहरपनाह खड़ी करने की  
 आज्ञा किस ने तुम्हें दी । और हम ने उन के नाम मां १०  
 पूछे कि हम उन के मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुम्हें को  
 जता सकें । और उन्होंने ने हमें यो उत्तर दिया कि हम तो ११  
 आज्ञा और पृथिवी के परमेश्वर के दास हैं और जिस  
 भवन को बहुत बरस हुए इस्त्राएलियों के एक बड़े राजा

ने बनाकर तैयार किया था उसी को हम बना रहे हैं ।  
 १२ जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को रिस दिलाई थी तब उस ने उन्हें बाबेल के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया और उस ने इस भवन को नाश किया और लोगों को बंधुआ करके बाबेल को ले गया ।  
 १३ पर बाबेल के राजा कुसू के पहिले बरस में उसी कुसू राजा ने परमेश्वर के इस भवन के बनाने की आज्ञा दी ।  
 १४ और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम में के मन्दिर में से निकलवा कर बाबेल में के मन्दिर में ले गया था उन को राजा कुसू ने बाबेल में के मन्दिर में से निकलवा कर शेश-बस्सर नाम एक पुरुष को जिसे उस ने अधिपति ठहरा दिया लौप दिया । और उस ने उस से कहा ये पात्र ले जाकर यरूशलेम में के मन्दिर में रख और परमेश्वर का १६ वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए । तब उसी शेशबस्सर ने आकर परमेश्वर के यरूशलेम में के भवन की नेव डाली और तब से अब लों यह बन रहा है पर १७ अब लों नहीं बन चुका । सो अब यदि राजा को भाए तो बाबेल में के राजभण्डार में इस बात की खोज की जाए की राजा कुसू ने सचमुच परमेश्वर के यरूशलेम में के भवन के बनवाने की आज्ञा दी थी वा नहीं तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हम को जताए ॥

## ६. तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के

पुस्तकालय में जहां खजाना भी रहता था खोज की गई । और मादै नाम प्रान्त के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिस में यह ३ वृत्तान्त लिखा था कि, राजा कुसू के पहिले बरस में उसी कुसू राजा ने वह आज्ञा दी कि परमेश्वर के यरूशलेम में के भवन के विषय वह भवन अर्थात् वह स्थान जिस में बलिदान किये जाते थे सो बनाया जाए और उस की नेव हठता से डाली जाए उस की ऊंचाई ४ और चौड़ाई साठ साठ हाथ की हो । उस में तीन रहे भारी भारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी का ५ हो और इन की लागत राजभवन में से दी जाय । और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में के मन्दिर में से निकलवाकर बाबेल को पहुंचा दिये थे सो लौटाकर यरूशलेम में के मन्दिर के अपने अपने स्थान पर पहुंचाये जाएं और ६ तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना । सो अब हे महानद के पार के अधिपति तत्तनै हे शतर्भोजनै तुम अपने सद्चारी महानद के पार के अपासकियों समेत

वहां से अलग रहे । परमेश्वर के उस भवन के काम को ७ रहने दो यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाने पाएं । बरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन ८ पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए अर्थात् राजा के धन में से महानद के पार के कर में से उन पुरुषों का फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए ऐसा न हो कि उन को रुकना पड़े । और क्या बछड़े ९ क्या मेढ़े क्या मन्ने स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलियों के लिये जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो और जितना गेहूं लौन दाखमधु और तेल यरूशलेम में के याजक कहें सो सब उन्हें बिना भूल चूक दिन दिन दिया जाए इस-लिये कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंधवाले १० बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिये प्रार्थना किया करें । फिर मैं ने आज्ञा दी है कि जो कोई ११ यह आज्ञा टाले उस के घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह आप चढ़ाकर जकड़ा जाए और उस का घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए । और १२ परमेश्वर जिस ने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है सो क्या राजा क्या प्रजा उन सभी को उलट दे जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिये हाथ बढ़ाएं । मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है फुर्ती से ऐसा ही करना ॥

तब महानद के इस पार के अधिपति तत्तनै और १३ शतर्भोजनै और उन के सहचारियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से किया । सो १४ यहूदी पुरनिये हागौ नबी और इहो के पोते जकर्याह के नबूवत करने से मन्दिर का बनाते रहे और कृतार्थ भी हुए और इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुसू दारा और अर्तक्षत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा करने पाये । सो वह भवन राजा दारा के राज्य के छठवें बरस में १५ अदार महीने के तीसरे दिन को बन चुका । तब इस्राएली १६ अर्थात् याजक लेवीय और और जितने बंधुआई से आये थे उन्होंने ने परमेश्वर के उस भवन की प्रातिष्ठा उत्सव के साथ की । और उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने ने १७ एक सौ बैल और दो सौ मेढ़े और चार सौ मन्ने और फिर सारे इस्राएल के निमित्त पापबल करके इस्राएल के गोत्रों को गिनती के अनुसार बांध बकरे चढ़ाये । तब १८ जैसे मूसा की पुस्तक में लिखा है वैसे उन्होंने ने परमेश्वर की आराधना के लिये जो यरूशलेम में है बापी-बापी के याजकों और दख दल के लेबावों को ठहरा दिया ॥



१९ फिर पहिले महीने के चौदहवें दिन को बंधुआई  
 २० से आये हुए लोगों ने फसह माना । क्योंकि याजकों और  
 लेवीयों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया  
 या सो वे सब के सब शुद्ध थे और उन्होंने ने बंधुआई से  
 आये हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के और  
 २१ अपने अपने लिये फसह के पशु बलि किये । तब बंधुआई  
 से लौटे हुए इस्राएली और जितने उस देश की अन्य  
 जातियों की अशुद्धता से इसलिये अलग होकर यहूदियों  
 से मिल गये वे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की  
 २२ खोज करें उन सबों ने भोजन किया, और अखमीरी  
 रोटी का पर्व सात दिन लों आनन्द के साथ मानते रहे  
 क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनन्दित किया था और अशूर  
 के राजा का मन उन की ओर ऐसा फेर दिया था कि  
 उस ने परमेश्वर अर्थात् इस्राएल के परमेश्वर के भवन  
 के काम में उन को हियाब बंधाया था ॥

(एज्रा का राजा की ओर से यरूशलेम को भेजा जाना)

७. इन बातों के पीछे अर्थात् फारस के राजा  
 अर्तक्षत्र के दिनों में एज्रा बाबेल से

यरूशलेम को गया वह सरयाह का पुत्र था और सरयाह  
 २ अजर्याह का पुत्र था अजर्याह हिल्कियाह का, हिल्कियाह  
 शल्लूम का शल्लूम सादोक का सादोक अहीतब का,  
 ३ अहीतब अमर्याह का अमर्याह अजर्याह का अजर्याह  
 ४ मरायोत का, मरायोत जरह्याह का जरह्याह उज्जी का  
 ५ उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशू का अबीशू पीनहास का  
 पीनहास एलाजर का और एलाजर हारून महायाजक  
 ६ का पुत्र था । वह एज्रा मूसा की व्यवस्था के विषय  
 जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण  
 शास्त्री था और उस के परमेश्वर यहोवा की कृपादृष्टि  
 ७ जो उस पर रही इस के अनुसार राजा ने उस का सारा  
 ८ मांगा बर दे दिया । और जितने इस्राएली और याजक  
 लेवीय गवैये और नतीन अर्तक्षत्र राजा के सातवें बरस  
 ९ में यरूशलेम को गये । और वह राजा के सातवें बरस  
 १० के पांचवें महीने में यरूशलेम को पहुँचा । पहिले महीने  
 के पहिले दिन को तो वह बाबेल से चल दिया और उस  
 के परमेश्वर की कृपादृष्टि<sup>२</sup> उस पर रही इस से पांचवें  
 ११ महीने के पहिले दिन वह यरूशलेम को पहुँचा । क्योंकि  
 एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और  
 उस के अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम  
 सिखाने के लिये अपना मन लगाया था ॥

११ जो बिट्टो राजा अर्तक्षत्र ने एज्रा याजक और शास्त्री

को दी जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और  
 उस की इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री  
 या उस को नकल यह है अर्थात्, एज्रा याजक जो स्वर्ग १२  
 के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है उस को  
 अर्तक्षत्र महाराजाधिराज की ओर से इत्यादि । मैं यह १३  
 आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और  
 उन के याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम  
 जाने चाहें सो तेरे संग जाने पाएँ । तू तो राजा और १४  
 उस के सातों मंत्रियों की ओर से इसलिये भेजा जाता  
 है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे  
 पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा बूझ ले, और १५  
 जो चांदी सेना राजा और उस के मंत्रियों ने इस्राएल  
 के परमेश्वर को जिस का निवास यरूशलेम में है अपनी  
 इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सेना सारे बाबेल १६  
 प्रान्त में तुम्हें मिलेगा और जो कुछ लोग और याजक  
 अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिये जो  
 यरूशलेम में है देंगे उस को ले जाएँ । इस कारण तू १७  
 उस रुपये से फुर्ती के साथ बेल मेढ़े और मेम्ने उन के  
 योग्य अन्नबलि और अर्घ की बस्तुओं समेत मोल ले  
 और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरू-  
 शलेम में के भवन में है । और जो चांदी सेना बचा १८  
 रहे उस से जो कुछ तुम्हें और तेरे भाइयों को उचित  
 जान पड़े सोई अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुमार  
 करना । और तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के १९  
 लिये जो पात्र तुम्हें सौंपे जाते हैं उन्हें यरूशलेम के  
 परमेश्वर के साम्हने दे देना । और इन से अधिक जो २०  
 कुछ तुम्हें अपने परमेश्वर के भवन के लिये आवश्यक  
 जानकर देना पड़े सो राजखजाने में से दे देना । मैं २१  
 अर्तक्षत्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार  
 के सब खजांचियों से जो कुछ एज्रा याजक जो स्वर्ग के  
 परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है तुम लोगों से चाहे  
 वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात् सो किन्कार तक २२  
 चांदी सो कोर तक गेहूँ सो बत लों दाखमधु सो बत  
 लों तेल और सोन जितना चाहिये उतना दिया जाए ।  
 जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले ठीक २३  
 उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिये  
 किया जाए राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर  
 का क्रोध तो क्यों भड़कने पाए । फिर हम तुम को चिता २४  
 देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक  
 लेवीय गवैये डेबदीदार नतीन वा और किसी सेवक से  
 कर चुंगी वा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है । फिर हे २५  
 एज्रा तैरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो

तुम्हें मैं ही न्यायियों और विचार करनेहारों को ठहराना जो महानद के पार रहनेहारे उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हों न्याय किया करें और जो जो उन्हें न जानते हों उन को तुम सिखाया करो ।  
२६ और जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने उस को दण्ड फुर्ती से दिया जाए चाहे प्राणदण्ड चाहे देश निकाला चाहे माल जब्त किया जाना चाहे कैद करना ॥

२७ धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा जिस ने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यहोवा के यरूशलेम में के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उस के मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया । सो मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपादृष्टि<sup>२</sup> जो मुझ पर हुई इस के अनुसार मैं ने हियाब बांधा और इस्राएल में से कितने मुख्य पुरुषों को इकट्ठे किया जो मेरे संग चलें ॥

(एजा का सहचारियों समेत यरूशलेम को पहुंचना)

## ८. उन के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य

पुरुष थे हैं और जो लोग राजा अर्तक्षत्र के राज्य में शबैल से मेरे संग यरूशलेम को गये  
१ उन की वंशावली यह है । अर्थात् पीनहास के वंश में से गेशीम ईतामार के वंश में से दानिय्येल दाऊद के  
२ वंश में से हत्तूश । शकन्याह के वंश के परोश के वंश में से जकर्याह जिस के संग डेढ़ सौ पुरुषों की वंशावली  
३ हुई । पहल्मोआब के वंश में से जरह्याह का पुत्र  
४ एल्यहोएनै जिस के संग दो सौ पुरुष थे । शकन्याह के वंश में से यहजीएल का पुत्र जिस के संग तीन सौ पुरुष  
५ थे । आदीन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद  
६ जिस के संग पचास पुरुष थे । एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशायाह जिस के संग सत्तर पुरुष  
७ थे । शपत्याह के वंश में से मीकाएल का पुत्र जबद्याह  
८ जिस के संग अस्सी पुरुष थे । योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबद्याह जिस के संग दो सौ अठारह  
९ पुरुष थे । शलोमीत के वंश में से योसिप्याह का पुत्र  
१० जिस के संग एक सौ साठ पुरुष थे । बेबै के वंश में से बेबै का पुत्र जकर्याह जिस के संग अठ्ठाईस पुरुष थे ।  
११ अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान जिस के संग एक सौ दस पुरुष थे । अदोनीकाम के वंश में से जो पीछे गये उन के ये नाम हैं अर्थात् एलीपेलेत यीएल और शमायाह और उन के संग साठ पुरुष थे । और

बिबै के वंश में से ऊतै और जब्बूद थे और उन के १४ संग सत्तर पुरुष थे ॥

इन को मैं ने उस नदी के पास जो अहवा की ओर १५ बहती है इकट्ठा कर लिया और वहां हम लोग तीन दिन डेरे डाले रहे और मैं ने वहां लोगों और याजकों को देख लिया पर किसी लेवीय को न पाया । सो मैं ने एलीएजेर १६ अरीएल शमायाह एलनातान यारीब एलनातान न तान जकर्याह और मशुल्लाम को जो मुख्य पुरुष थे और योथारीब और एलनातान को जो बुद्धिमान् थे बुलवाकर, इहो के पास जो कासिप्या नाम स्थान का प्रधान था भेज १७ दिया और उन को समझा दिया कि कासिप्या स्थान में इहो और उस के भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना कि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिये सेवा टहल करनेहारों को ले आएँ । और हमारे परमेश्वर की १८ कृपादृष्टि<sup>२</sup> जो हम पर हुई इस के अनुसार वे हमारे पास ईशेकेल<sup>३</sup> के जो इस्राएल के परपोता और लेवी के पीता महली के वंश में से था और शैरेब्याह को और उस के पुत्रों और भाइयों को अर्थात् अठारह जनों को, और १९ हशब्याह को और उस के संग मरारी के वंश में से यशायाह को और उस के पुत्रों और भाइयों को अर्थात् बीस जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और २० हाकिमों ने लेवीयों की सेवा करने को ठहराया था दो सौ बीस नतीनों को ले आये । इन सभी के नाम लिखे हुए थे । तब मैं ने वहां अर्थात् अहवा नदी के तीर पर उपवास २१ का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के साम्हने दीन हों और उस से अपने और अपने बालबच्चों और अपनी सारी संपत्ति के लिये सरल यात्रा मांगें । क्योंकि मैं मार्ग में के शत्रुओं से बचने के लिये सिपाहियों २२ का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर तो उन की भलाई के लिये कृपादृष्टि<sup>४</sup> रखता पर जो उसे त्याग देते हैं उस का बल और क्रोध उन के विरुद्ध है । सो इस विषय हम ने उपवास २३ करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उस ने हमारी सुनी । तब मैं ने मुख्य याजकों में से बारह पुरुषों को २४ अर्थात् शैरेब्याह हशब्याह और इन के दस भाइयों को अलग करके, जो चांदी सोना और पात्र राजा और उस २५ के मंत्रियों और उस के हाकिमों और जितने इस्राएली हाजिर थे उन्होंने ने हमारे परमेश्वर के भवन के लिये भेंट दिये थे उन्हें तौल कर उन को दिया । अर्थात् मैं ने उन के २६

(२) मूल में भला हाथ ।

(३) वा एक बुद्धिमान् पुरुष ।

(४) मूल में हाथ ।

(१) मूल में हाथ ।

हाथ में साठे छः सौ किकार चांदी सौ किकार चांदी के  
 १७ पात्र सौ किकार सोना, हजार दर्कमोन के सोने के  
 बीस कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चोखे चमकनेहारे  
 १८ पीतल के दो पात्र तौलकर दे दिये । और मैं ने उन से  
 कहा तुम तो यहोवा के लिये पवित्र हो और ये पात्र भी  
 पवित्र हैं और यह चांदी और सोना भेंट का है जो  
 तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिये प्रसन्नता से दी  
 १९ गई । सो जागते रहो और जब लो तुम इन्हें यरूशलेम में  
 प्रधान याजकों और लेवीयों और इस्राएल के पितरों के  
 घरानों के प्रधानों के साम्हने यहोवा के भवन की कोठरियों  
 २० में तौलकर न दो तब लो इन की रक्षा करते रहो । तब  
 याजकों और लेवीयों ने चांदी सोने और पात्रों की तौल  
 कर लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के  
 भवन में पहुंचाएं ॥

२१ पहिले महीने के बारहवें दिन को हम ने अहवा नदी  
 से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे  
 परमेश्वर की कृपादृष्टि हम पर रही और उस ने हम  
 को शत्रुओं और मार्ग पर घात लगानेहारों के हाथ से  
 २२ बचाया । निदान हम यरूशलेम को पहुंचे और वहां तीन  
 २३ दिन रहे । फिर चौथे दिन वह चांदी सोना और पात्र  
 हमारे परमेश्वर के भवन में ऊरीयाह के पुत्र मरेमोत  
 याजक के हाथ में तौलकर दिये गये और उस के संग पीन-  
 हास का पुत्र एलाजार था और उन के संग येशू का पुत्र  
 योजाबाद लेवीय और बिन्नुई का पुत्र नोअयाह लेवीय  
 २४ थे । वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गईं और उन की  
 २५ सारी तौल उसी समय लिखी गई । जो बंधुआई से आये  
 थे उन्हों ने इस्राएल के परमेश्वर के लिये होमबलि चढाये  
 अर्थात् सारे इस्राएल के निर्मित बारह बछड़े छियानवे  
 मेंढे और सतहत्तर मेंढे और पापबलि के लिये बारह बकरे  
 २६ यह सब यहोवा के लिये होमबलि था । तब उन्हों ने राजा  
 की आशाएं महानद के इस पार के उस के अधिकारियों  
 और अधिपतियों को दीं और उन्हों ने इस्राएली लोगों और  
 परमेश्वर के भवन के काम की सहायता की ॥

(यहूदा के पाप के कारण एत्रा की प्राथना)

**६. जब** ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे  
 पास आकर कहने लगे न तो इस्रा-  
 एली लोग न याजक न लेवीय देश देश के लोगों से  
 न्यारे हुए बरन उन के से अर्थात् कनानियों हितियों  
 परिजियों यबुलियों अग्मोनियों मोआबियों मिस्रियों और  
 २ एमारियों के से धिनौने काम करते हैं । क्योंकि उन्हों ने  
 उन की बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिये

(१) मूल में हाथ ।

किया कर ली हैं और पवित्र वंश देश देश के लोगों में  
 मिल गया है बरन हाकिम और सरदार इस विश्वास-  
 चात में मुख्य हुए हैं । यह बात सुन कर मैं ने अपने बख्त  
 और बागे को फाड़ा और अपने सिर और बाड़ी के बाल  
 नोचे और विन्मित होकर बैठ रहा । तब जितने लोग  
 इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आये  
 हुए लोगों के विश्वासचात के कारण थरथराते थे सब  
 मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं रात्रि की भेंट के समय लो  
 विस्मित होकर बैठा रहा । पर रात्रि की भेंट के समय मैं  
 ५ बख्त और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा  
 फिर दुःखों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमे-  
 श्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर  
 मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है और हे  
 मेरे परमेश्वर मेरा मुंह काला है क्योंकि हम लोगों के  
 अधर्म के काम हमारे सिर पर बड़ गये हैं और हमारा  
 दोष बढ़ते बढ़ते आकाश लो पहुंचा है । अपने पुरखाओं  
 ७ के दिनों से ले आज के दिन लो हम बड़े दोषी हैं और  
 अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं  
 और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में  
 किये गये कि तलवार बंधुआई लुटे जाने और मुंह काले  
 हो जाने की विपत्तियों में पड़े जैसे कि आज हमारी दशा है ।  
 और अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह  
 ८ हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले  
 और हम को उस के पवित्र स्थान में एक खूंटी मिली और  
 हमारे परमेश्वर ने हमारी आंखों में ज्योति आने दी  
 और दासत्व में हम को थोड़ा सा नया जीवन मिला । हम  
 ९ दास तो हैं ही पर हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर  
 ने हम को नहीं छोड़ दिया बरन फारस के राजाओं को  
 हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर  
 अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उस के खंडहरों  
 को सुधारने पाये और हमें यहूदा और यरूशलेम में आइ  
 १० मिली । और अब हे हमारे परमेश्वर इस के पीछे हम  
 क्या कहें यह कि हम ने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़  
 ११ दिया है, जो तू ने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा  
 दीं कि जिस देश के अधिकांसी होने को तुम जाने पर  
 हो वह तो देश देश की लोगों की अशुद्धता के कारण  
 और उन के धिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है  
 उन्हों ने तो उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने लो अपनी  
 १२ अशुद्धता से भर दिया है । सो अब तुम न तो अपनी  
 से अपने बेटों का ब्याह करना और न कभी उन का  
 कुशल चेम चाहना इसलिये कि तुम बल पकड़ो और

उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे  
 १३ ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश का अधिकार सदा  
 बना रहे । और उस सब के पीछे जो हमारे बुरे कामों और  
 बड़े दोष के कारण हम पर बाँता है जब हे हमारे  
 १४ परमेश्वर तु ने हमारे अधर्म के बराबर हमें दण्ड नहीं  
 दिया वरन हम में से इतनों को बचा रक्खा है, तो क्या  
 हम तेरी आज्ञाओं को फिर तोड़कर इन धिनोने काम  
 करनेहारे लोग। से समाधियाना करें । क्या तु हम पर यहाँ  
 तक कोप न करेगा कि हम मिट जाएंगे और न तो कोई  
 १५ बचेगा न कोई छूटा रहेगा । हे इस्राएल के परमेश्वर  
 यहोवा तु तो धर्मी है हम बचकर छूटे ही हैं जैसे कि  
 आज देख पड़ता है देख हम तेरे साम्हने दोषी हैं इस  
 कारण न कोई तेरे साम्हने खड़ा नहीं रह सकता ॥

(यहूदियों का अन्यजाति स्त्रियों को दूर करना)

१०. जब एज्रा परमेश्वर के भवन के साम्हने

पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और  
 पाप का अंगीकार कर रहा था तब इस्राएल में से पुरुष।  
 स्त्रियों और लड़कैवालों की एक बहुत बड़ी मण्डली  
 २ उस के पास जुड़ गई और लोग बिलग बिलग रो रहे  
 थे । तब यहोएल का पुत्र शकन्याह जो एलाम की  
 सन्तान में का था एज्रा से कहने लगा हम लोगों ने इस  
 ३ देश के लोगों में से अन्यजाति स्त्रियां ब्याह कर अपने  
 परमेश्वर का विश्वासवात तो किया है पर इस दशा में  
 भी इस्राएल के लिये आशा है । सो अब हम अपने  
 परमेश्वर से यह वाचा बाधें कि हम प्रभु की सम्मति और  
 अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर धरधरानेहारों की  
 सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उन के  
 ४ लड़कैवालों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम  
 किया जाए । तु उठ क्योंकि यह काम तेरा ही है और  
 हम तेरे साथ हैं सो हियाव बांधकर इस काम में लग  
 ५ जा । तब एज्रा उठा और याजकों लेवीयों और सब इस्रा-  
 एलियों के प्रधानों को यह किरिया खिलाई कि हम इसी  
 वचन के अनुसार करेंगे और उन्हां ने वैसी ही किरिया  
 ६ खाई । तब एज्रा परमेश्वर के भवन के साम्हन से उठा  
 और एल्थाशीव के पुत्र योहानान को कोठरी में गया  
 और वहां पहुँचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया क्योंकि  
 वह बंधुआई से आये हुआ के विश्वासघात के कारण  
 ७ शोक करता रहा । तब उन्हां ने यहूदा और यरूशलेम  
 में रहनेहारे बंधुआई से आये हुए सब लोगों में यह  
 ८ प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो  
 कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न माने और  
 दिन लौ न आए उस की सारी धनसंचित सत्यानाश की

जाएगी और वह आप बंधुआई से आये हुआ की सभा से  
 अलग किया जायगा । सो यहूदा और बिन्यामीन के सब ९  
 मनुष्य तीन दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए यह  
 तो नौवें महीने के बीसवें दिन हुआ और सब लोग  
 परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और  
 झड़ी के मार कांपते हुए बैठे रहे । तब एज्रा याजक खड़ा १०  
 होकर उन से कहने लगा तुम लोग। ने विश्वासघात  
 करके अन्यजाति स्त्रियां ब्याह लीं और इस से इस्राएल  
 का दोष बढ़ गया है । सो अब अपने पितरों के परमेश्वर ११  
 यहोवा के साम्हने अपना पाप मान लो और उस की इच्छा  
 पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्यजाति स्त्रियों  
 से न्यारे हो जाओ । तब सारी मण्डली के लोगों ने ऊने १२  
 शब्द से कहा जैसा तु ने कहा है वैसा ही हमें करना  
 उचित है । पर लोग बहुत हैं और भूमी का समय है १३  
 और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते और यह दो एक  
 दिन का काम नहीं है क्योंकि हम ने इस बात में बड़ा १४  
 अपराध किया है । सारी मण्डली की ओर से हमारा  
 हाकिम ठहराये जाए और जब लो हमारे परमेश्वर का  
 भूका हुआ कोप हम पर से दूर न हो और यह काम  
 निपट न जाए तब लो हमारे नगरों के जितने निवासियों  
 ने अन्यजाति स्त्रियां ब्याह लीं हों सो नियत समया पर  
 आया करें और उन के संग एक एक नगर के पुरनिये  
 और न्यार्या आएँ । इस के विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र १५  
 योनातान और तिकबा के पुत्र यहजयाह खड़े हुए और  
 मशुल्लाम और शब्यतै लेवीयों ने उन का सहाय किया ।  
 पर बंधुआई से आये हुए लोगों ने वैसा ही किया । सो १६  
 एज्रा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य  
 पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने  
 सब नाम लिखाकर अलग किये गये और दसवें  
 महीने के पहिले दिन का इस बात की तहकीकात के  
 लिये बैठने लगे । और पहिले महीने के पहिले दिन लो १७  
 उन्हां ने उन सब पुरुषों की बात निपटा दी जिन्हें न  
 अन्यजाति स्त्रियों का ब्याह लिया था । और याजकों की १८  
 सन्तान में से ये जन पाये गये जिन्हें न अन्यजाति  
 स्त्रियों को ब्याह लिया था अर्थात् योसादाक के पुत्र येशू  
 के पुत्र और उस के भाई मासेयाह एलीएजेर यारीब  
 और गदल्याह । इन्हो ने हाथ मारकर वचन दिया कि हम १९  
 अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे और उन्हां ने दोषो  
 ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि  
 किया । और इम्मेर की संतान में से हनानी और २०  
 जबद्याह, और हारीम की संतान में से मासेयाह एलि २१  
 ब्याह शमायाह यहोएल और उज्जियाह, और पशहूर २२

की संतान में से एल्योएनै मासेयाह इशमाएल नतनेल  
 २३ योजाबाद और एलासा । फिर लेबीयों में से योजाबाद  
 शिमी केलायाह जो कलीता कहलाता है पतह्याह यहूदा  
 २४ और एलीएजेर । और गानेहारों में से एल्थाशीब और  
 २५ डेवर्डादारों में से शल्लूम तेनेम और ऊरी । और इस्त्राएल  
 में से परेश की संतान में से रम्याह यिजिव्याह मल्लिक-  
 व्याह मिर्यामीन एलाजार मल्लिकव्याह और बनायाह,  
 २६ और एलाम की संतान में से मत्तन्याह जकर्याह यहीएल  
 २७ अब्दी यरेमेत और एलियाह, और जत्तू की संतान में से  
 एल्योएनै एल्थाशीब मत्तन्याह यरेमेत जाबाद और  
 २८ अजीजा, और बेवै की संतान में से यहोहानान हनन्याह  
 २९ जन्वै और अतलै, और बानी की संतान में से मशु-  
 ३० ल्लाम मल्लुक अदायाह याशूब शाल और यरामोत, और  
 पहतभोआव की संतान में से अदना कलाल बनायाह

मासेयाह मत्तन्याह बसलेल बिज्रुई और मनश्शे, और ३१  
 हारीम की संतान में से एलीएजेर यिरिशव्याह मल्लिक-  
 व्याह शमायाह शिमोन, विन्यामीन मल्लुक और शमर्याह, ३२  
 और हाशूम की संतान में से मत्तनै मत्तत्ता जाबाद ३३  
 एलीपेलेत यरेमै मत्तश्शे और शिमी, और बानी की ३४  
 संतान में से मादै अम्राम ऊएल, बनायाह वेदयाह ३५  
 कलुही, बन्याह मरेमेत एल्थाशीब, मत्तन्याह ३६, ३७  
 मत्तनै वास, बानी बिज्रुई शिमो, शेलेम्याह नातान ३८, ३९  
 अदायाह, मक्रदवै शाशै शारै, अजरेल शेलेम्याह ४०, ४१  
 रोमयाह शल्लूम अमर्याह और योसेप, और नबो की ४२, ४३  
 संतान में से यीएल मत्तित्याह जाबाद जवीना इहो  
 योएल और बनायाह । इन सभी ने अन्य जाति स्त्रियां ४४  
 ब्याह ली थीं और कितनों की स्त्रियों से लड़के भी  
 उत्पन्न हुए थे ॥

## नहेम्याह नाम पुस्तक ।

(नहेम्याह का राजा से आज्ञा पाकर यरूशलेम को जाना)

१. **हकल्याह** के पुत्र नहेम्याह के वचन ।  
 बीसवें बरस के किसलेव नाम  
 महीने में जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था,  
 २ तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आये  
 हुए कई एक पुरुष आये तब मैं ने उन से उन बच्चे हुए  
 यहूदियों के विषय जो बंधुवाई से छूट गये थे और  
 ३ यरूशलेम के विषय पूछा । उन्होंने ने मुझ से कहा जो बच्चे  
 हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रान्त में रहते हैं सो  
 बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उन की निन्दा होती है क्योंकि  
 यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उस के फाटक  
 ४ जले हुए हैं । ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और  
 कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर  
 के सन्मुख उपवास और यह कहकर प्रार्थना करता रहा  
 ५ कि, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा हे महान् और भययोग्य  
 ईश्वर तू जो अपने प्रेम रखनेहारों और आज्ञा मानने-  
 ६ हारों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर कृपा  
 करता है, तू कान लगाये और आँखें खोले रह कि जो  
 प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्त्राएलियों के  
 लिये दिन रात करता रहता हूँ उसे तू सुन ले । मैं

इस्त्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किये हैं  
 मान लेता हूँ मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप  
 किया है । हम ने तेरे साम्हने बहुत बुराई की है और जो ७  
 आज्ञाएं विधियां और नियम तू ने अपने दास मूसा  
 के दिये थे उन को हम ने नहीं माना । उस वचन की ८  
 सुधि ले जो तू ने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि  
 तुम लोग विश्वासवात करो तो मैं तुम को देश देश के  
 लोगों में तितर बितर करूंगा, पर यदि तुम मेरी और ९  
 फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो  
 चाहे तुम में से धकियाये हुए लोग आकाश की छोर में  
 भी हों तोभी मैं उन को वहां से इकट्ठा करके उस स्थान  
 में पहुंचाऊंगा जिसे मैं ने अपने नाम के निवास के लिये  
 चुन लिया है । अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग १०  
 हैं जिन को तू ने अपने बड़े सामर्थ्य और बलवन्त हाथ  
 के द्वारा छुड़ा लिया है । हे प्रभु बिनती यह है कि तू ११  
 अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की  
 प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान  
 लगा और आज अपने दास का काम सुफलकर और  
 उस पुरुष को उस पर दयालु कर । मैं तौ राजा का  
 पिलानेहार था ॥

## २. अर्तक्षत्र राजा के बीसवें बरस के

नीसान नाम मर्दाने में जब उस के साम्हने दाखमधु था तब मैं ने दाखमधु उठा कर राजा को दिया उस म पहिले तो मैं उस के साम्हने उदास २ कभी न हुआ था । सो राजा ने मुझ से पूछा तू तो रागी नहीं है फिर तेरा मुंह क्या उतरा है यह तो मैं ने ३ हाँ की उदासी होगी । तब मैं अत्यन्त डर गया और राजा स कहा राजा सदा जीता रहे जब वह नगर जिस में मेरे पुरखाओ की कबर हैं उजाड़ पड़ा और उस के ४ फाटक जले हुए हैं तो मेरा मुंह क्यों न उतरे । राजा ने मुझ से पूछा फिर तू क्या मांगता है तब मैं ने स्वर्ग के ५ परमेश्वर से प्रार्थना करके, राजा से कहा यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कबरों के नगर को भेज कि मैं ६ उसे बनाऊँ । तब राजा ने जिस के पास रानी बैठी थी मुझ से पूछा तू कितने दिन लो परदेश रहेगा और कब लौटेगा । सो राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैं ७ ने उस के लिये एक समय ठहराया । फिर मैं ने राजा से कहा यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधि- ८ पतियों के लिये इस आशय की चिट्ठियाँ मुझे दी जाए कि जब लो मैं यहूदा को न पहुँचूँ तब लौं वे मुझे अपने ९ अपने देश से होकर जाने दें । और सरकारी जंगल के रखवाले आशय के लिये भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए कि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियाँ के लिये और शहरपनाह के और उस घर के लिये जिस में मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे । मेरे परमेश्वर की कृपादृष्टि मुझ पर रही इस से राजा ने मुझे यह १० दिया । तब मैं ने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियाँ दीं । राजा ने तो मेरे ११ संग सेनापति और सवार भेजे थे । यह सुनकर कि एक मनुष्य इसाएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है हेरोना सम्बल्लत और तोबिय्याह नाम कर्म- १२ चारी जो अम्मोनी था उन दोनों को बहुत बुरा लगा । १३ जब मैं यरूशलेम पहुँच गया तब वहाँ तीन दिन रहा । १४ तब मैं थोड़े पुरुषों समेत रात को उठा मैं ने तो किसी को न बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिये मेरे मन में क्या उपजाया था और अपनी सवारा के १५ पशु को छोड़ कोई पशु भी मेरे संग न था । सो मैं रात को तराई के फाटक होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ाफाटक के पास गया और

यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा । तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और १४ राजा के कुएँ के पास गया पर मेरा सवारी के पशु के लिये आगे जाने को स्थान न था । तब मैं रात ही रात १५ नाले में होकर शहरपनाह की देखा हुआ चढ़ गया फिर घूमकर तराई के फाटक से भातर आय और यँ लोट गया । और हाकिम न जानने थे कि मैं क्या गया और १६ क्या करता था बरन मैं ने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था न याजकों न रईसों न हाकिमों न दूसरे काम करनेहारों को । तब मैं ने उन से कहा तुम तो आप देखते १७ हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा और उस के फाटक जले हुए हैं सो आओ हम यरूशलेम का शहरपनाह को उठाएँ कि आगे की हमारी नामधराई न रहे । फिर मैं ने उन को बतलाया कि मेरे १८ परमेश्वर की कृपादृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझ से क्या क्या बातें कही थीं तब उन्होंने ने कहा आओ हम कमर बान्धकर बनाने लगे और उन्हें ने वह १९ भला काम करने को हियाव बांधलिया । यह सुनकर हेरोना सम्बल्लत और तोबिय्याह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें उठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे यह तुम क्या काम करते हो, क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे । तब २० मैं ने उन को उधर देकर उन से कहा स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सुफल करेगा इसलिये हम उस के दास कमर बांधकर बनाएंगे पर यरूशलेम में तुम्हारा न तो भाग न हक न स्मरण है ॥

(यरूशलेम की शहरपनाह का फेर बनाया जाना)

## ३. तब एल्याशीव महायाजक ने अपने भाई

याजकों समेत कमर बान्धकर भेड़- १ फाटक को बनाया । उन्होंने उस की प्रतिष्ठा की और उस के पत्तों को भी लगाया और हम्मेआ नाम गुम्मट लो बरन हननेल के गुम्मट के पास लो उन्होंने ने शहर- २ पनाह की प्रतिष्ठा की । उस से आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया और इन से आगे इसी के पुत्र जक्कूर ने बनाया । फिर मजलीफाटक को ह-सना के बेटे ने बनाया ३ उन्होंने ने उस की कड़ियाँ लगाई और उस के पत्तले ताले और बड़े लगाये । और उन से आगे मगेमोत ने जो ४ हकीम का पोता और ऊरिय्याह का पुत्र था मरम्मत की और इन से आगे मशुल्लाम ने जो मशेजबेल का पोता और बेरेन्याह का पुत्र था मरम्मत की और इन से आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की । ५ और इन से आगे तकोईयो ने मरम्मत की पर उन के

(१) मूल में भला हाव ।

रहस्यों ने अपने प्रभु की सेवा का जूआ अग्नी गर्दन पर  
 ६ न लिया । फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के  
 पुत्र योयादा और बसेदयाह के पुत्र मशुल्लाम ने की  
 उन्हीं ने उस की कड़ियां लगाई और उस के पल्ले ताले  
 ७ और बेंड़े लगाये । और उन से आगे गिबोनी मलत्याह  
 और मेरोनेती यादोन ने और गिबोन और मिस्रा के  
 मनुष्यों ने महानद के पार के अधिपति के सिंहासन की  
 ८ और मरम्मत की । उन से आगे हर्हयाह के पुत्र उज्जी-  
 एल ने और और सुनारों ने मरम्मत की और इस से आगे  
 हनन्याह ने जो गंधियों के समाज का था मरम्मत की  
 और उन्हीं ने चौड़ी शहरपनाह लो यरूशलेम को दृढ़  
 ९ किया । और उन से आगे हूर के पुत्र रपायाह ने जो  
 यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था मरम्मत की ।  
 १० और उन से आगे हरूमप के पुत्र यदायाह ने अपने ही  
 घर के साम्हने मरम्मत की और इस से आगे हशब्नयाह  
 ११ के पुत्र हत्तूश ने मरम्मत की । हारीम के पुत्र मलिकय्याह  
 और पहम्मोआब के पुत्र हश्शब ने एक और भाग की  
 १२ और भट्टों के गुम्मत की मरम्मत की । इस से आगे  
 यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र  
 १३ शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की । तराई के  
 फाटक की मरम्मत हानून और जानोह के निवासियों ने  
 की उन्हीं ने उस को बनाया और उस के ताले बेंड़े और  
 पल्ले लगाये और हजार हाथ की शहरपनाह को भी  
 अर्थात् कूड़ाफाटक तक बनाया । और कूड़ाफाटक की  
 १४ मरम्मत रेकाब के पुत्र मलिकय्याह ने की जो बेथक्केम  
 के जिले का हाकिम था उसी ने उस को बनाया और  
 १५ उस के ताले बेंड़े और पल्ले लगाये । और सोताफाटक का  
 मरम्मत काल्हेजे के पुत्र शल्लूम ने की जो मिस्रा के  
 जिले का हाकिम था उसी ने उस को बनाया और पाटा  
 और उस के ताले बेंड़े और पल्ले लगाये और उसी ने  
 राजा की बारी के पास के शैलह नाम कुण्ड की शहरपनाह  
 १६ को भी दाऊदपुर से उतरनेदारी सीढ़ी लो बनाया । इस  
 के पीछे अजबूक के पुत्र नहेम्याह ने जो बेतशूर के आधे  
 जिले का हाकिम था दाऊद के कब्रिस्तान के साम्हने  
 तक और बनाये हुए पोखरे लो बरन बीरों के घर तक  
 १७ भी मरम्मत की । इस के पीछे बानी के पुत्र रहूम ने  
 कितने खेवीयों समेत मरम्मत की । इस से आगे भीला  
 के आधे जिले के हाकिम हशब्नयाह ने अपने जिले की  
 १८ और से मरम्मत की । उस के पीछे उन के भाइयों समेत  
 कीला के आधे जिले के हाकिम हेनादाद के पुत्र बव्वै ने

मरम्मत की । उस से आगे एक और भाग की मरम्मत १९  
 जो शहरपनाह के मोड़ के पास शक्यों के घर की चढ़ाई के  
 साम्हने है येशू के पुत्र एजेर ने की जो मिस्रा का हाकिम  
 था । उस के पीछे एक और भाग की अर्थात् उसी मोड़ २०  
 से ले एल्याशीब महायाजक के घर के द्वार लों की मरम्मत  
 जबै के पुत्र बारूक ने तन मन से की । इस के पीछे २१  
 एक और भाग की अर्थात् एल्याशीब के घर के द्वार से  
 ले उसी घर के सिरे लों की मरम्मत मरेमोत ने की जो  
 हकौस का पोता और ऊरिम्याह का पुत्र था । उस के २२  
 पीछे उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य  
 थे । उन के पीछे विन्यामीन और हश्शब ने अपने घर के २३  
 साम्हने मरम्मत की और इन के पीछे अजर्याह ने जो  
 मासेयाह का पुत्र और अनन्याह का पोता था अपने  
 घर के पास मरम्मत की । उस के पीछे एक और भाग २४  
 की अर्थात् अजर्याह के घर से ले शहरपनाह के मोड़ बरन  
 उस के कोने लों की मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिन्नुई ने  
 की । फिर उसी मोड़ के साम्हने जो ऊंचा गुम्मत राज- २५  
 भवन से उभरा हुआ पहरे के आंगन के पास है उस के  
 साम्हने ऊँचे के पुत्र पालाल ने मरम्मत की इस के पीछे  
 परोश के पुत्र पदायाह ने मरम्मत की । नतीन लोग तो २६  
 ओपेल में पूरब और जलफाटक के साम्हने लो और उभरे  
 गुम्मत लो रहते थे । पदायाह के पीछे तकाहयो ने एक २७  
 और भाग की मरम्मत की जो बड़े उभरे हुए गुम्मत के  
 साम्हने और ओपेल की शहरपनाह लो है । फिर घोड़ा- २८  
 फाटक के उपर याजकों ने अपने अपने घर के साम्हने  
 मरम्मत की । इन के पीछे इम्मेर के पुत्र सादोक ने २९  
 अपने घर के साम्हने मरम्मत की और इस के पीछे पूरबी  
 फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र शमायाह ने मरम्मत  
 की । इस के पीछे शैलेम्याह के पुत्र हनन्याह और सालाप ३०  
 के छठवें पुत्र हानून ने एक और भाग की मरम्मत की ।  
 इन के पीछे बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी  
 के साम्हने मरम्मत की । उस के पीछे मलिकय्याह ने ३१  
 जो सुनार था नतीने और व्योपारियों के स्थान लो  
 ठहराये हुये स्थान के फाटक के साम्हने और कोने के  
 कोठे तक मरम्मत की । और कोनेवाले कोठे से ले ३२  
 मेड़फाटक लो सुनारों और व्योपारियों ने मरम्मत की ॥  
 (यहूदियों के शत्रुओं का विरोध करना)

४. जब सम्बलत ने सुना कि यहूदी लोग  
 शहरपनाह को बना रहे हैं तब उस ने  
 बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने

(१) मल में जो गंधियों का बैठा था ।

(२) मल में जो सुनारों का बैठा था । (३) वा हुर्मिपकाद नाम फाटक ।

- २ लगा । वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के साम्हने या कहने लगा वे निर्बल यहूदी क्या किया चाहते हैं क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान हट करेगे क्या वे यश करेंगे क्या वे आज ही सब काम निगटा डालेंगे क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नये सिरे से बनाएंगे? उस के पास तो अम्मोनी तोबियाह था सो वह कहने लगा जो कुछ वे बना रहे हैं यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उन की बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा । हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उन की की हुई नामधराई को उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुवाई के देश में लुटवा दे । और उन का अधर्म तू दांप न दे न उन का पाप तेरे मन से भूल जाय? क्योंकि उन्हीं ने तुम्हे शहरपनाह बनानेहारों के साम्हने रिश दिलाई । और हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई लों जुड़ गई क्योंकि लोगों का मन उस काम में लगा रहा ॥
- ७ जब सम्बलत और तोबियाह और अबियों अम्मो नियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उस में के नाके बंद होने लगे तब उन्हीं ने बहुत ही बुरा माना, और सभी ने एक मन से गोष्ठी की कि हम जाकर यरूशलेम से लड़ेंगे और उस में गड़बड़ डालेंगे । पर हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उन के डर के मारे उन के विरुद्ध दिन रात के पहरेण ठहरा दिये । और यहूदी कहने लगे ढोनेहारों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है सो शहरपनाह हम से नहीं बन सकती ।
- ११ और हमारे शत्रु कहने लगे कि जब लों हम उन के बीच में न पहुंचें और उन्हें घात करके वह काम बन्द न करें तब लों उन को न कुछ मालूम होगा और न कुछ देख पड़ेगा । फिर जो यहूदी उन के पास रहते थे उन्हीं ने सब स्थानों से दस बार आ आकर हम लोगों से कहा हमारे पास लौटना चाहिये । इस कारण मैं ने लोगों को तलवारें बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सब से नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुधार बैठा दिया । तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और और सब लोगों से कहा उन से मत डरो प्रभु जो महान् और भययोग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों बेटों बेटियों बियों और घरों के लिये लड़ना ।

(१) मूल में वे अपने लिये झोंकेंगे । (२) मूल में जिलाएंगे ।

(३) मूल में तेरे साम्हने से न भिटे ।

(४) मूल में शहरपनाह पर पट्टी चढ़ी ।

सो जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह उन्हीं मालूम हो गया और परमेश्वर ने हमारी युक्ति निष्फल की है तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गये । और उस दिन से मेरे आचे सेवक तो उस काम में लगे और आचे बर्छियों तलवारों धनुषों और भिलमों को धारण किये रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे । शहरपनाह के बनानेहारे और बोभ के ढोनेहारे दोनों भार उठाते थे अर्थात् एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे । और राज अपनी अपनी जांब पर तलवार लटकाये हुये बनाते थे । और नरसिंगे का फूंकनेहारा मेरे पास रहता था । सो मैं ने रईसों हाकिमों और सब लोगों से कहा काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं । सो जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा । यों हम काम में लगे रहे और उन में से आचे पह फटने से तारों के निकलने लों बर्छियां लिये रहते थे । फिर उसी समय मैं ने लोगों से यह भी कहा कि एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें । और न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई न मेरे सेवक न वे पहरेण जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे सब कोई पानी के पास हथियार लिये हुये जाते थे ॥

(यहूदियों में अम्भेर पाया जाना)

#### ५. तब लोग और उन की बियों की अपने भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिन्ताहट

मची । कितने तो कहते थे हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं इसलिये हमें अन्न मिलना चाहिये उसे खाकर जीते रहें । और कितने कहते थे कि हम अपने अपने खेतों दाख की बारियां और घरों को बंधक रखते हैं महंगी के कारण हमें अन्न मिलना चाहिये । फिर कितने यह कहते थे कि हम ने राजा के कर के लिये अपने अपने खेतों और दाख की बारियां पर रुपया उधार लिया । पर हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उन के लड़केवाले एक ही समान हैं तीभी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं वरन हमारी कोई कोई बेटा दासी हो भी चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां औरों के हाथ पड़ी हैं । यह चिन्ताहट और ये बातें सुनकर मैं ने बहुत बुरी मानी । तब अपने मन में

६

७



लोच विचार करके मैं ने रईसों और हाकिमों को बुझकर कहा तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो । तब मैं ८ ने उन के विरुद्ध एक बड़ी सभा की । और मैं ने उन से कहा हम ले-गों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्यजातियों के हाथ बिक गये थे दाम देकर छुड़ाया है फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचने पाओगे क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे । तब वे चुप रहे और ९ कुछ न कह सके । फिर मैं कहता गया जो काम तुम करते हो सो अच्छा नहीं है क्या तुम को इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिये कि हमारे शत्रु जो जो अन्धजाति हैं सो हमारी नामधराई १० करते हैं । मैं भी और मेरे भाई और सेवक उन को रुपया और अनाज उधार देते हैं पर हम इस का ब्याज ११ छोड़ दें । आज ही उन को उन के खेत और दाख और जलपाई की बरियां और घर फेर दो और जो रुपया अब नया दाखमधु और टरका तेल तुम उन से १२ ले लेते हो उस का सौवां भाग फेर दो । उन्हें नै कहा हम उन्हें फेर देंगे और उन से कुछ न लेंगे जैसा तु कहता है वैसा ही हम करेंगे । तब मैं ने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह किरिया खिलाई कि हम इसी वचन १३ के अनुसार करेंगे । फिर मैं ने अपने कपड़े की छोर भाड़कर कहा इसी रीति जो कोई इस वचन को पूरा न करे उस को परमेश्वर भाड़कर उस का घर और कमाई उस से छोड़ाये इसी रीति वह भाड़ा जाए और छूछा हो जाए । तब सारी सभा ने कहा आमेन और यहोवा की स्तुति की और लोगों ने इस वचन के अनुसार काम १४ किया । फिर जब से मैं यहूदा देश में उन का अधिपति ठहराया गया अर्थात् राजा अर्तक्षत्र के बीसवें बरस से ले उस के बत्तीसवें बरस लों अर्थात् बारह बरस लों मैं और मेरे भाई अधिपति के हक का भोजन न खाते थे । १५ पर पहले अधिपति जो मुझ से आगे थे सो प्रजा पर भाव डालते थे और उन से रोटी और दाखमधु और इस से अधिक चालीस शेकेल चान्दी लेते थे बरन उन के सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे पर मैं ऐसा न करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था । १६ फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि माल न ली और मेरे सब सेवक १७ काम करने के लिये वहां इकट्ठे रहते थे । फिर मेरी भेज पर खानेहारे एक सौ पचास यहूदी और हाकिम और वे भी थे जो चारों और की अन्यजातियों में से हमारे पास १८ आते थे । और जो दिन दिन के लिये तैयार किया

(१) मल में पीके ।

जाता था सो एक बैल छः अच्छी अच्छी मेड़ें वा बकरियां थीं और मेरे लिये चिड़ियाएँ भी तैयार की जाती थीं और दस दस दिन पीछे भांति भांति का बहुत दाख-मधु भी पर तीभी मैं ने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था । हे मेरे १९ परमेश्वर जो कुछ मैं ने इस प्रजा के लिये किया है उसे तू मेरे हित के लिये स्मरण रख ॥

(शत्रुओं के विरोध करने पर भी शहरपनाह का बन चुकना)

६. जब सम्बलत तोबिय्याह और अरबी गेशेम और हमारे और शत्रुओं को यह समाचार भिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका और यद्यपि उस समय लों भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था तीभी शहरपनाह में कोई नाका न रह गया था, तब सम्बलत और गेशेम ने मेरे पास यों कहला मेजा २ कि आ हम दोनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से मेट करें । पर वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे । पर मैं ने उन के पास दूतों से कहला मेजा कि मैं ३ तो भारी काम में लगा हूं सो वहां नहीं जा सकता । मेरे यह काम छोड़कर तुम्हारे पास जाने से यह क्यों बन्द रहे । फिर उन्होंने ने चार बार मेरे पास वैसी ही बात ४ कहला मेजा और मैं ने उन को वैसा ही उत्तर दिया । तब पांचवीं बार सम्बलत ने अपने सेवक को खुली हुई ५ चिट्ठी देकर मेरे पास मेजा, जिस में यों लिखा था कि जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशेम ६ भी यही बात कहता है कि तुम्हारों और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार ७ उन का राजा बनना चाहता है । और तू ने यरूशलेम में नबी ठहराये हैं जो यह कह कर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जायगा सो अब आ हम एक साथ सम्मति करें । तब मैं ने उन के पास कहला मेजा कि जैसा तू ८ कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है । वे सब लोग यह सोच कर हमें डराना ९ चाहते थे कि उन के हाथ ढाले पड़ेंगे और काम बन्द हो जाएगा । पर अब तू मुझे हियाव दे ॥

और मैं शभायाह के घर म गया जो दलायाह का १० पुत्र और महितबेल का पोता था वह तो बन्द घर में था उस ने कहा आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात् मन्दिर के भीतर आपस में मेट करें और मन्दिर के द्वार बन्द करें क्योंकि वे लोग तुम्हें घात करने आएंगे रात ही को वे तुम्हें घात करने आयेंगे । पर ११

मैं ने कहा क्या मुझ ऐसा मनुष्य भागे और मुझ ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मन्दिर में घुसे? मैं १२ नहीं जाने का । फिर मैं ने जान लिया कि वह परमेश्वर का मेजा नहीं है पर उस ने वह बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिये कहा है और तोबियाह और १३ सम्बलत ने उसे रुपया दे रक्खा था । उन्होंने उसे इस कारण रुपया देकर रक्खा था कि मैं डर जाऊ और वैया ही काम करके पापी ठहरूँ और उन को अपवाद लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर १४ सकें । हे मेरे परमेश्वर तोबियाह सम्बलत और नोशियाह नबिया और और जितने नबी मुझे डराना चाहते थे उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख ॥

१५ एलूल महीने के पचीसवें दिन को अर्थात् बावन १६ दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी । जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहनेवाले सब अन्यजाति डर गये और बहुत लजा गये क्योंकि उन्होंने ने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से १७ हुआ । उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबियाह के १८ बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी । क्योंकि वह आह के पुत्र शान्याह का दामाद था और उस के पुत्र यहोहानान जिस ने बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम की बेटी को ब्याह लिया था इस कारण बहुत से यहूदी उस का १९ पक्ष करने की किरिया खाये हुए थे । और वे मेरे सुनते उस के भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बात भी उस को सुनाया करते थे । और तोबियाह मुझे डराने के लिये चिट्ठियां भेजा करता था ॥

(यरूशलेम का बसाया जाना)

## ७. जब शहरपनाह बन गई और मैं ने उस

के फाटक खड़े किये और डेवदादार

२ गवैये और और लेवीय लोग ठहराये गये, तब मैं ने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम के अधिकारी ठहराया क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय माननेवाला था । ३ और मैं ने उन से कहा जब लो घाम कड़ा न हो तब लो यरूशलेम के फाटक न खोले जाएँ और जब पहलवे पहरा देते रहें तब ही फाटक बन्द किये और बड़े लगाये जाएँ फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा जा अगना अपना पहरा अपने अपने घर के साम्हने ४ दिया करें । नगर तो लम्बा चौड़ा था पर उस में लोग ५ थाड़े थे और घर बने न थे । सो मेरे परमेश्वर ने मेरे

(१) वा जो मन्दिर में घुसकर जाता रहे ।

(२) मूल में वह मनुष्य ।

मन में यह उपजाया कि रईसों हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिये इकट्ठे करूँ कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाएँ । और मुझे पहिले पहिल यरूशलेम को आये हुआ का वशावतीपत्र मिला और उस में मैं ने ये लिखा हुआ पाया कि, जिन का बाबेल ६ का राजा नबूकदनेस्सर बन्धुआ करके ले गया था उन में से प्रान्त के जो लोग बन्धुवाई से छूटकर, जेरुसालेम येशू ७ नहेम्याह अजर्याह शान्याह नहमानी मोर्दकै बिलशान मिस्पेरैत बिग्वै नहूम और बाना के सग यरूशलेम और यहूदा के अपने अपने नगर को आये सो ये हैं । इसाएली प्रजा के लोगो की गिनती यह है । अर्थात् परोश के ८ संतान दो हजार एक सौ बहत्तर, सपत्याह के संतान ९ तीन सौ बहत्तर, आरह के संतान छः सौ बावन, १० पहत्तोआब के संतान, येशू और योआब के संतान ११ दो हजार आठ सौ अठारह, एलाम के संतान बारह सौ १२ चौबन, जत् के संतान आठ सौ पैंतालीस, जकै के १३, १४ संतान सात सौ साठ, बिजूई के संतान छः सौ अड़- १५ तालीस, बेवै के संतान छः सौ अट्ठाईस, अजगाद १६, १७ के संतान दो हजार तीन सौ बाईस, अदानीकाम के १८ संतान छः सौ सड़सठ, बिग्वै के संतान दो हजार सड़सठ, १९ आदीन के संतान छः सौ पचपन, हिजकियाह के २०, २१ संतान आतेर के वंश में से अट्टानवे, हाशूम के संतान २२ तीन सौ अट्ठाईस, बेसै के संतान तीन सौ चौबीस, २३ हारीप के संतान एक सौ बारह, गिबोन के लोग २४, २५ पंचानवे, बेतलेहेम और नतोपा के मनुष्य एक सौ अट्ठासी, २६ अनातोत के मनुष्य एक सौ अट्ठाईस, बेतजमावेत २७, २८ के मनुष्य बयालीस, किर्यत्यारीम कपीरा और बेरोत २९ के मनुष्य सात सौ पैंतालीस, रामा और गोबा के मनुष्य ३० छः सौ इक्कीस, मिकपास के मनुष्य एक सौ बाईस, ३१ बेतेल और ऐ के मनुष्य एक सौ तेईस, दूसरे नबी ३२, ३३ के मनुष्य बावन, दूसरे एलाम के संतान बारह सौ ३४ चौबन, हारीम के संतान तीन सौ बीस, यरीहो के ३५, ३६ लोग तीन सौ पैंतालीस, लोद हादाद और ओनो के ३७ लोग सात सौ इक्कीस, सना के लोग तीन हजार नौ ३८ सौ तीस । फिर याजक अर्थात् येशू के घराने में से ३९ यदायाह के संतान नौ सौ तिहत्तर, इम्मेर के संतान ४० एक हजार बावन, पशहूर के संतान बारह सौ सैंता- ४१ लीस, हारीम के संतान एक हजार सत्रह । फिर ४२, ४३ लेवीय ये थे अर्थात् होदवा के वंश में से कदमीएल के संतान येशू के संतान चौहत्तर । फिर गवैये ये थे अर्थात् ४४ आसाप के संतान एक सौ अड़तालीस । फिर डेवदादार ४५ ये थे अर्थात् शल्लूम के संतान आतेर के संतान

तुम्होनों के संतान अकबूक के संतान हतीपा के संतान और शोबे के संतान से सब मिलकर एक सौ अड़तीस ५६ हुए । फिर नतीन अर्थात् सीहा के संतान इसूग के संतान ५७ तन्नाओत के संतान, केरोस के संतान सीभा के संतान ५८ पादोन के संतान, लबाना के संतान इगावा के संतान ५९ शल्मै के संतान । हानान के संतान गिह्ल के संतान ५० गहर के संतान, राया के संतान रसीन के संतान नकोदा के संतान, गजाम के संतान उजा के संतान पासेह के संतान, बेसै के संतान मूनीम के संतान नपूशस के संतान, बकबूक के संतान हपूपा के संतान हहूर के संतान, बसलीत के संतान महीदा के संतान दर्शा के संतान, ५५ बर्कोस के संतान सीसरा के संतान तेमह के संतान, ५६, ५७ नसीह के संतान और हतीपा के संतान । फिर सुलैमान के दासों के संतान अर्थात् सोतै के संतान ५८ सोपेरेत के संतान परीदा के संतान, याला के संतान ५९ दर्कों के संतान गिह्ल के संतान, शपत्याह के संतान हकील के संतान पोकेरेत सबायीम के संतान और ६० आमोन के संतान । नतीन और सुलैमान के दासों के संतान मिलकर तीन सौ बानवे थे ॥

६१ और ये त्रे हैं जो तेलमेलह तेलहर्शा करुब अहोन और इम्मेर से यरुशलैम को गये पर अपने अपने पितर के घराने और बंशावली न बता सके कि इस्राएल के हैं ६२ वा नहीं । अर्थात् दलायाह के संतान तोबिय्याह के संतान और नकोदा के संतान जो सब मिलकर छः सौ ६३ बयालीस थे । और याजकों में से होशयाह के संतान हक़ोस के संतान और बर्जिल्लै के संतान जिस ने गिलादी बर्जिल्लै की बेटियों में से एक को ब्याह लिया और ६४ उन्हीं का नाम रख लिया था । इन्होंने अपना अपना बंशावलीपत्र और और बंशावलीपत्रों में छूड़ा पर न पाया इसलिये वे अशुद्ध ठहरकर याजकपद से निकाले गये । ६५ और अधिपति<sup>१</sup> ने उन से कहा कि जब लो जरीम और तुम्होनों धारण करनेहारा कोई याजक न उठे तब लो तुम कोई परमपवित्र वस्तु खाने न पाओगे ॥

६६ सारी मण्डली के लोग मिलकर बयालीस हजार ६७ तीन सौ साठ ठहरे । उन को छोड़ उन के सात हजार तीन सौ सैंतीस दास दासियां और दो सौ पैतालीस ६८ गानेहारे और गानेहारियां थीं । उन के छोड़े सात सौ ६९ अड़तीस खम्बर दो सौ पैतालीस, अठ चार सौ पैतीस ७० और गद्दे छः हजार सात सौ बीस थे । और पितरों के घरानों के कई एक मुख्य पुरुषों ने काम के लिये दिया । अधिपति<sup>१</sup> ने तो चन्दे में हजार दर्कमोन सेना पचास

कटोरे और पाँच सौ तीस याजकों के अंगरखे दिये । और पितरों के घरानों के कई मुख्य मुख्य पुरुषों ने उस ७१ काम के चन्दे में बीस हजार दर्कमोन सेना और दो हजार दो सौ माने चांदी दी । और शेष प्रजा ने जो ७२ दिया सो बीस हजार दर्कमोन सेना दो हजार माने चांदी और सड़सठ याजकों के अंगरखे हुए । सो याजक ७३ लेवीय टेबढ़ीदार गवैये प्रजा के कुछ लोग और नतीन और सब इस्राएली अपने अपने नगर में बस गये ॥

(यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना)

८. जब सातवां महीना निकट आया तब सारे इस्राएली अपने अपने नगर में थे । तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के साम्हने के चौक में इकट्ठे होकर एज्रा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहेवा ने इस्राएल को दी थी उस की पुस्तक ले आ । सो एज्रा याजक सातवें महीने के पहिले दिन को क्या खी क्या पुरुष क्या जितने सुनकर समझ सकते थे उन सभी के साम्हने व्यवस्था को ले आया । और वह उस की बातें भोर से दो पहर लों उस चौक के साम्हने जो जलफाटक के साम्हने था क्या खी क्या पुरुष सब समझनेहारे को पढ़कर सुनाता रहा और सब लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाये रहे । एज्रा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिये बना था खड़ा हो गया और उस की दहिनी अलंग मत्तित्याह शेमा अनायाह ऊरिय्याह हिल्किय्याह और मासेयाह और बाई अलंग पदायाह मीशाएल मल्किय्याह हाशम हरबहाना अकर्याह और मशुल्लाम खड़े हुए । तब एज्रा ने जो सब लोगों से ऊँचे पर था सभी के देखते उस पुस्तक को खोल दिया और जब उस ने उस को खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए । तब एज्रा ने महान् परमेश्वर यहेवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमेन आमेन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहेवा को दण्डवत की । और येशू बानी शेरैब्याह यामीन अकबूब शब्बतै होदिय्याह मासेयाह कलीता अजर्थाह योजाबाद हानान पलायाह नाम लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गये और लोग अपने स्थान पर खड़े रहे । और उन्हीं ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में पढ़कर और टीका लगाकर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया । तब नहेम्बाह जो अधिपति था और एज्रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे उन्हीं ने सब लोगों से कहा आज का दिन तो तुम्हारे

परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र है सो विलाप न करे और न रोओ क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे । फिर उस ने उन से कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो और जिन के लिये कुछ तैयार नहीं हुआ उन के पास बैना मेजा क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिये पवित्र है फिर उदास मत रहे क्योंकि यहोवा का आनन्द तुम्हारा हृदय गढ़ है ।

११ यों लेबीयों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया कि चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है और उदास मत रहे । सो सब लोग खाने पीने बैना मेजने और बड़ा आनन्द करने को चले गये इस कारण कि जो वचन उन को समझाये गये थे उन्हें वे समझ गये थे ॥

१३ और दूसरे दिन को भी सारी प्रजा के पित्रों के बरानों के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेबीय लोग एफ्रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने को इकट्ठे हुए । और उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा से यह आज्ञा दिलाई थी कि इस्राएली सातवें महीने के पर्व के समय भोपड़ियों में रहा करे, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यों सुनाया और प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर जाकर जलपाई तैलघृत मेंहदी खजूर और बने बने वृक्षों की डालियां ले आकर भोपड़ियां बनाओ जैसे कि लिखा है ।

१६ सो लोग बाहर जाकर डालियां ले आये और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जलफाटक के चौक में और

१७ एप्रैम के फाटक के चौक में भोपड़ियां बना लीं । बरन जितने बंधुभाई से छूटकर लौट आये थे उन की सारी मण्डली के लोग भोपड़ियां बनाकर उन में टिके । नून के पुत्र येशू के दिनों से ले उस दिन तक इस्राएलियों ने

१८ ऐसा न किया था । सो बहुत बड़ा आनन्द हुआ । फिर पहिले दिन से पिछले दिन को एफ्रा ने दिन दिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ रढ़कर सुनाया । यों वे सात दिन लों पर्व के मानते रहे और आठवें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई ॥

(पाप का अंगीकार)

६. फिर उसी महीने ३ चौबीसवें दिन को इस्राएली उपवास किये टाट पहिने

२ और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गये । तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्यजाति लोगों से न्यारे हो गये और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के मान लिया ।

३ तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक

पहर तक तो अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दण्डवत् करते रहे । और येशू बानी कदमीएल शबन्याह बुझा शेरेंब्याह ४ बानी और कनानी ने लेबीयों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी । फिर ५ येशू कदमीएल बानी हशब्नयाह शेरेंब्याह होदिब्याह शबन्याह और पतझाह नाम लेबीयों ने कहा खड़े हो अपने परमेश्वर यहोवा के अनादिकाल से अनन्तकाल लों धन्य कहो और तेरा महिमायुक्त नाम धन्य कहा जाए जो सारे धन्यवाद और स्तुति से बढकर है । तू ही ६ अकेला यहोवा है स्वर्ग बरन सब से ऊंचे स्वर्ग और उस के सारे गण और पृथिवी और जो कुछ उस में है और समुद्र और जो कुछ उस में है सभों को तू ही ने बनाया और सभों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुम्हीं को दण्डवत् करती है । हे ७ यहोवा तू वही परमेश्वर है जो अत्राम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उस का नाम इब्राहीम रक्खा और उस के मन को अपने साथ ८ सच्चा पाकर उस से वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों हितियों एमारियों परिजियों यबूसियों और गिर्गाशियों का देश दूंगा और तू ने अपना वह वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी है । फिर तू ने मिस्र में ९ हमारे पुरखाओं के दुःख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तीर पर उन की दोहाई सुनी । और फिरौन और १० उस के सब कर्मचारी बरन उस के देश के सारे लोगों को दण्ड देने के लिये चिन्ह और चमकार दिखाये क्योंकि तू जानता था कि वे उन से अभिमान करते हैं और तू ने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज लों बना है । और तू ने उन के आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया ११ कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हुए और जो उन के पाँछे पड़े थे उन को तू ने गहिरें स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजलराशि में डाला जाए । फिर तू ने दिन को बादल के खंभे में होकर १२ और रात को आग के खंभे में होकर उन की अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उस में उन को उजियाला मिले । फिर तू ने सीने पर्वत पर उतरकर १३ आकाश में से उन के साथ बातें कीं और उन को सीधे नियम सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दीं, और उन्हें अपने पवित्र विभ्रामदिन का ज्ञान दिया १४ और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दीं, और उन की भुख मिटाने को आकाश १५

से उन्हें भोजन दिया और उन की व्यास बुझाने को चटान  
 में से उन के लिये पानी निकाला और उन्हें आशा दी  
 कि जिस देश के तुम्हें देने की मैं ने किरिया खाई है  
 १६ उस के अधिकार होने को तुम उस में जाओ । परन्तु  
 उन्हो ने और हमारे पुरखात्र ने अभिमान किया और  
 १७ इठाले बने और तेरी आशाएं न मानी, और आशा  
 मानने को नाह की और जो आश्चर्यकर्म तू ने उन  
 के बीच किये थे उन का स्मरण न किया बरन इठ करके  
 यहाँ लौ बलवा करनेहारे बने कि एक प्रधान ठहराया  
 कि अपने दासत्व की दशा में लौटें । पर तू क्षमा  
 करनेहारा अनुग्रहकारी और दयालु बिलम्ब से कोप  
 करनेहारा और अतिक्रमणमय ईश्वर है तू ने उन को  
 १८ न रगगा । बरन जब उन्हो ने बछड़ा ढालकर कहा कि  
 तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें जिस देश से छुड़ा लाया है  
 १९ मेा यही है और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तू  
 जो अति दयालु है सो उन को जंगल में न त्यागा, न  
 तो दिन को अगुआई करनेहारा बादल का खंभा उन  
 पर से हट गया और न रात को उलियाला देनेहारा  
 २० और उन का मार्ग दिखानेहारा आग का खंभा । बरन  
 तू ने उन्हें समझाने के लिये अपने आत्मा को जो भला  
 है दिया और अपना मान उन्हें खिलामा न छोड़ा और  
 २१ उन की प्यास बुझाने को पानी देता रहा । चत्तीस  
 बरस लौ तू जंगल में उन का ऐसा पालन पोषण करता  
 रहा कि उन की कुछ घटी न हुई न तो उन के बल  
 २२ पुराने हो गये और न उन के पांव सूजे । फिर तू ने  
 राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उन के वश  
 कर दिया और दिशा दिशा में उन को बांट दिया, सो  
 वे हेमबोन के राजा सीहान और बशान के राजा ओग  
 २३ दोनों के देशों के अधिकारी हो गये । फिर तू ने उन  
 की सतान को आकाश के तारों के समान बहुत करके  
 उन्हें उस देश में पहुँचा दिया जिस के विषय तू ने उन  
 के पितरों से कहा था कि वे उस में जाकर उस के  
 २४ अधिकारी हो जाएंगे । सो यह सन्तान जाकर उस की  
 अधिकारिन हो गई और तू ने उन से देश के निवासी  
 कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों  
 समेत उन को उन के हाथ कर दिया कि वे उन से जो  
 २५ चाहें सोई करें । और उन्हो ने गढ़वाले नगर और  
 उगजाऊ भूमि ले ली और सब भांति की अच्छी वस्तुओं  
 से भरे हुए बगे के और खुदे हुए हीदों के और दास  
 और जलपाई की बारियों के और खाने के फलवाले बहुत  
 से वृक्षों के अधिकारी हो गये सो वे खा खाकर तुम

(१) मूल में हाथ उठवा है ।

हुए और हड़पुष्ट हो गये और तेरी बड़ी अलाई के कारण  
 सुख मानते रहे । परन्तु वे तुम्ह से फिरकर बलवा २६  
 करनेहारे हुए और तेरी व्यवस्था को पीठ पीछे कर दिया  
 और तेरे जो नबां तेरा ओर फेरने के लिये उन को चिताते  
 रहे उन को बात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया ।  
 इस कारण तू ने उन को उन के राज्यों के हाथ में कर २७  
 दिया और उन्हो ने उन को संकट में डाल दिया तो भी  
 जब जब वे संकट में पड़कर तेरा देखाई देते तब तब तू  
 स्वर्ग से उन की सुनता और तू जो अतिदयालु है सो उन  
 के छुड़ानेहारे ठहराया था जो उन को राज्या के हाथ से  
 छुड़ाते थे । पर जब जब उन को चैन मिला तब तब वे २८  
 फिर तेरे साम्हने सुगाई करते थे इस कारण तू उन को  
 राज्यों के हाथ कर देता था और वे उन पर प्रभुता  
 करते थे तौभी जब वे फिरकर तेरा देखाई देते तब तू स्वर्ग  
 से उन की सुनता और तू जो दयालु है सो बार बार उन  
 को छुड़ाता, और उन को चिताता था इसलिये कि उन २९  
 को फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे । पर वे अभि-  
 मान करते और तेरा आशाएं न मानते थे और तेरे नियम  
 जिन को यदि मनुष्य माने तो उन के कारण जीता रहे  
 उन के विरुद्ध पाप करते और इठ करके अपना कन्धा  
 हटाते और न सुनते थे । तू तो बहुत बरस लौ उन की ३०  
 सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें  
 चिताता रहा पर वे कान न लगाते थे सो तू ने उन्हें देश  
 देश के लोगों के हाथ में कर दिया । तौभी तू ने जो ३१  
 अति दयालु है सो उन क अंत न कर डाला और न उन  
 को त्याग दिया क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर  
 है । अब तो वे हमारे परमेश्वर हे महान् पराक्रमी और ३२  
 भयभोग्य ईश्वर जो अपनी वाचा पालता और कन्धा  
 करता रहता है जो बड़ा कष्ट अशशर के राजाओं के दिनों  
 से ले आज के दिन लों हमें और हमारे राजाओं हाकिमों  
 याजकों नबियों पुरखाओं बरन तेरी सारां प्रजा को भोगना  
 पदा है सो तेरे लेखे थोड़ा न अहरे । तौभी जो कुछ हम ३३  
 पर बीता है उस के विषय तू तो धर्मी है तू ने तो सब्चाई  
 से काम किया है पर हम ने दुष्टता की है । और हमारे ३४  
 राजाओं और हाकिमों याजकों और पुरखाओं न न  
 तो तेरा व्यवस्था को माना है न तेरी आशाओं और  
 चिन्तियों की आंर ध्यान दिया जिन से तू ने उन का  
 चिताया था । उन्हो ने अपने राज्य में और उस बड़े ३५  
 कल्याण के समय जो तू ने उन्हें दिया था और इस लंबे  
 चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा न की और  
 न अपने हुरे कामों से फिरे । हम आज कल दास हैं ३६  
 जो देश तू ने हमारे पितरों को दिया था कि उस की

१७ उसम उपज खाएँ इसी में हम दास हैं । इस की उपज से उन राजाओं को जिन्हें तू ने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं तो हम बड़े संकट में पड़े हैं । और इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ बाचा बांधते और लिख भी देते हैं और हमारे हाकिम लेवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं ॥

(व्यवस्था के अनुसार चलने की बाचा बांधनी)

१०. जिन्होंने छाप लगाई सो ये हैं अर्थात्

हकल्याह का पुत्र नहेम्याह

२ जो अर्धपति<sup>१</sup> था और सिदकियाह, सरायाह अयर्जाह  
३,४ यिर्मयाह, पशहूर अमर्याह मल्लिकियाह, हत्तुश शबन्याह  
५,६ मल्लूक, हारीम मरयोत ओबद्याह, दानिय्येल गिन्नोन  
७,८ बारूक, मशुल्लाम अबियाह, मिय्यामीन । माज्याह बिलगौ  
९ और शभायाह ये ही तो याजक थे । फिर इन लेवीयों  
ने छाप लगाई अर्थात् आजन्याह का पुत्र येशू हेनादाद की  
१० संतान में से विन्नई और कदमीएल, और उन के भाई  
११ शबन्याह होदियाह कलीता पलायाह हानान, मीका  
१२, १३ रहोब हशब्याह, जस्कूर शेरेब्याह शबन्याह, होदि-  
१४ य्याह बानी और बनीन । फिर प्रजा के इन प्रधानों  
ने छाप लगाई अर्थात् परोश पहत्मोआब एलाम जत्तू  
१५, १६ बानी, बुझी अजगाद बेबै, अदोनियाह विग्वै  
१७, १८ आदीन, आतेर हजकियाह अज्जूर, होदियाह  
१९, २० हाशम बेसै, हारीष अनातोत नावै, मर्पाआश  
२१, २२ मशुल्लाम हेजीर, मशेजबेल सादोक यहू, पलत्याह  
२३, २४ हानान अनायाह, होशे हनन्याह हशशूब, हल्लोहेश  
२५, २६ पिल्हाशोबेक, रहूम हशब्ना माशेयाह, अहि-  
२७ य्याह हानान आनान, मल्लूक हारीम और बाना ।  
२८ और शेष लोग अर्थात् याजक लेवीय डेवढीदार गवैये  
और नतीन लोग निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था  
मानने के लिये देश देश के लोगों से न्यारे हुए थे उन  
सभों ने अपनी अपनी स्त्रियों और उन बेटों बेटियों समेत  
२९ जो समझनेदार थे, अपने भाई रईसों से मिलकर किरिया  
खाई<sup>२</sup> कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो  
उस के दास मूसा के द्वारा दी गई और अपने प्रभु  
यहोवा की सब आज्ञाएं नियम और विधियां मानने में  
३० चौकसी करेंगे, और हम न तो अपनी बेटियां इस देश  
के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिये उन  
३१ की बेटियां ब्याह लेंगे, और जब इस देश के लोग  
विश्रामदिन को आन वा और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले

(१) मूल में तिशाता । (२) मूल में आप और किरिया में प्रवेश किया ।

आयें तब हम उन से न तो विश्रामदिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे और सातबे सातबे बरस में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने श्रृण की उगाही छोड़ देंगे । फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिस से हम को अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिये एक एक तिहाई शेकेल देना पड़े, अर्थात् मेट की रोटी और नित्य अन्नबलि और नित्य द्रोमबलि और विश्रामदिनों और नये चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और और पवित्र मेटों और इस्त्राएल के प्रायश्चित्त के निमित्त पापयतियों निदान अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के खर्च के लिये । फिर क्या याजक क्या लेवीय क्या साधारण लोग हम सभों ने इस बात के ठहराने के लिये चिट्ठियां डालीं कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार बरस बरस में ठहराये हुए समयों पर लकड़ी की मेट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदां पर जलाने के लिये अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे, और अपनी अपनी भूमि की पहिली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहिले फल बरस बरस यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहिलौठे बेटों और पशुओं अर्थात् पहिलौठे बछड़ों और मेम्नों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं, और अपना पहिला गूधा हुआ आटा और उठाई हुई मेटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवीयों के पास लाया करेंगे क्योंकि लेवीय वे हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं । और जब जब लेवीय दशमांश लें तब तब उन के संग हासून की सन्तान का कोई याजक रहा करे और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात् भण्डार में पहुँचाया करेंगे । क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने-हारे याजक और डेवढीदार और गवैये रहते हैं उन में इस्त्राएली और लेवीय अनाज नये दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई मेटें पहुँचाएंगे । निदान हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे ॥

(यहूदी कहां कहां बस गये)

११. प्रजा के हाकिम तो यरूशलैम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिये चिट्ठियां डालीं कि दस में से एक

मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है वसे और नौ  
 २ मनुष्य और और नगरों में बसे। और जिन्होंने अपनी  
 ही इच्छा से यरूशलेम में बसना ठाना उन सभी को  
 ३ लोगों ने धन्य धन्य कहा। उस प्रान्त के मुख्य मुख्य  
 पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे सो ये हैं पर यहूदा के  
 नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था  
 अर्थात् इस्राएली याजक लेवीय नतीन और मुलैमान के  
 ४ दासों के सन्तान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और  
 विन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से तो येरेस के वंश  
 का अतायाह जो उज्जियाह का पुत्र था यह जकर्याह का  
 पुत्र यह अमर्याह का पुत्र यह शपत्याह का पुत्र यह  
 ५ महललेल का पुत्र था, और मासेयाह जो बारुक का  
 पुत्र था यह कोलाहोजे का पुत्र यह हजायाह का पुत्र  
 यह अदायाह का पुत्र यह योयारीब का पुत्र यह जकर्याह  
 ६ का पुत्र यह शीलौई का पुत्र था। येरेस के वंश के जो  
 यरूशलेम में रहते थे सो सब मिलाकर चार सौ अड़स  
 ७ शूरवीर थे। और विन्यामीनियों में से सल्लू जो मशुल्लाम  
 का पुत्र था यह योएद का पुत्र यह पदायाह का  
 पुत्र यह कोलायाह का पुत्र यह मासेयाह का पुत्र यह  
 ८ ईतीएह का पुत्र यह यशायाह का पुत्र था। और उस के  
 पीछे गम्बैल्लै जिस के साथ नौ सौ अट्ठारस पुरुष थे।  
 ९ इन का रखवाल जिक्की का पुत्र योएल था और हलनूआ  
 का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नाइब था।  
 १० फिर याजकों में से योयारीब का पुत्र यदायाह और  
 ११ याकीन, और सरायाह जो परमेश्वर के भवन का  
 प्रधान और हिल्कियाह का पुत्र था यह मशुल्लाम का  
 पुत्र यह सादोक का पुत्र यह मरायोत का पुत्र यह अही-  
 १२ तूष का पुत्र था, और इन के आठ सौ बाईस भाई जो  
 उस भवन का काम करते थे और अदायाह जो यरोहाम  
 का पुत्र था यह पलत्याह का पुत्र यह अम्सी का पुत्र  
 यह जकर्याह का पुत्र यह पशहूर का पुत्र यह मलिक-  
 १३ व्याह का पुत्र था, और इस के दो सौ बयालस भाई  
 जो पितरों के बरानों के प्रधान थे और अमरी जो अज-  
 रेल का पुत्र था यह अहजे का पुत्र यह मशिल्लेमोत का  
 पुत्र यह इम्मेर का पुत्र था और इन के एक सौ अट्ठ-  
 १४ ईस शूरवीर भाई। इन का रखवाल हग्गोलोम का  
 १५ पुत्र जब्दीएल था। फिर लेवीयों में से रामायाह जो  
 हरशख का पुत्र था यह अजोकाम का पुत्र यह हुशब्थाह  
 १६ का पुत्र यह बुजो का पुत्र था, और शब्बै और योजा-  
 बाद जो मुख्य लेवीयों में से और परमेश्वर के भवन के  
 १७ बाहरी काम पर ठहरे थे, और मत्तन्याह जो मीका का पुत्र  
 और जब्दी का पोता और आसाप का परपोता था और

प्रार्थना में धन्यवाद करनेहारों का मुखिया था और  
 बकभुम्याह जो अपने भाइयों में दूसरा था और अब्दा जो  
 शम्सू का पुत्र और गालाल का पोता और यदून का  
 परपोता था। जो लेवीय पवित्र नगर में रहते थे सो सब १८  
 मिलाकर दो सौ चौरासी थे। और अम्कूब और तल्मोन १९  
 नाम डेवढीदार और उन के भाई जो फाटकों के रखवाले  
 थे एक सौ बहत्तर थे। और शेष इस्राएली याजक और २०  
 लेवीय यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते  
 थे। और नतीन लोग ओपेल में रहते और नतीनों के २१  
 ऊपर सीहा और गिश्पा ठहरे थे। और जो लेवीय यरूशलेम २२  
 में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते थे  
 उन का मुखिया आसाप के वंश के गवैयों में का उज्जी  
 था जो बानी का पुत्र था यह हशब्थाह का पुत्र यह  
 मत्तन्याह का पुत्र यह हरशब्थाह का पुत्र था। क्योंकि २३  
 उन के विषय राजा की आज्ञा थी और गवैयों के दिन  
 दिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबन्ध था। और प्रजा २४  
 के सारे काम के लिये मशेजबेल का पुत्र पतह्याह जो  
 यहूदा के पुत्र जेरह के वंश में से था सो राजा के पास  
 रहता था। फिर गांव और उन के खेत कुछ यहूदी २५  
 कियर्थ और उस के गांवों में कुछ दीथोन और उस के  
 गांवों में कुछ यकबमेल और उस के गांवों में रहते थे, फिर २६  
 येशू मोलादा बेपेलेत, हर्शुआल और बेशेबा और २७  
 और उस के गांवों में, और निकलग और मकोना और २८  
 उन के गांवों में, एन्निमोन सारा यर्मत, जानोह और २९, ३०  
 अदुल्लाम और उन के गांवों में लाकीरा और उस के खेतों  
 में अजेका और उस के गांवों में वे बेशेबा से ले हिलोम  
 की तराई लों डेरे डाले हुए रहते थे। और विन्यामीनी ३१  
 गैव से लेकर मिकमरा अय्या और बेतेल और उस के  
 गांवों में, अनातोत नोथ अनन्याह, हासेर रामा ३२, ३३  
 गिस्तैम, हादीद सबोईम नभल्लत, लोद थिनो और ३४, ३५  
 कारीगरो की तराई लों रहते थे। और कितने यहूदी ३६  
 लेवीयों के दल विन्यामीन से मिलाये गये ॥

(याजकों और लेवीयों का व्योरा)

१२. जो याजक और लेवीय शालतीएल के  
 पुत्र जदुम्बाबेल के और येशू के संग  
 यरूशलेम की गये। ये सो ये थे अर्थात् सरायाह यिर्म-  
 याह एज्रा, अमर्याह मल्लूक हत्तूर, शकन्याह रहुम २, ३  
 मरेमोत, इहो गिस्तोई अबिय्याह, मीथामीन माद्याह ४, ५  
 बिलगा, शमायाह योयारीब यदायाह, सल्लू आमोक ६, ७  
 हिल्कियाह और यदायाह। येशू के दिनों में तो याजकों  
 और उन के भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष थे ही थे। फिर ८

(१) मूल में चढ़ गये।

- ये लेवीय गये अर्थात् येशू बिजुई कदमीएल शेरैब्याह यहूदा और वह मत्तन्याह जो अपने भाइयों समेत धन्य-  
 ९ वाद के काम पर उठरा था । और उन के भाई बकबुक्याह और उन्नो उन के साम्हने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे ॥
- १० और येशू ने योयाकीम को जन्माया और योयाकीम  
 ११ ने एल्याशीब को और एल्याशीब ने योयादा को, और  
 योयादा ने योनातान को और योनातान ने यहू को  
 १२ जन्माया । योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने  
 पितर के घराने के मुख्य पुरुष थे अर्थात् सरायाह का  
 १३ तो मरायाह थिर्मयाह का हनन्याह, एज्रा का मशुल्लाम  
 १४ अमर्याह का यहोहानान, मल्लुकी का योनातान शयन्याह  
 १५ का योसेप, हारीम का अदना मरायोत का हेलेकै,  
 १६, १७ इहो का जकर्याह गिन्नतोन का मशुल्लाम, अथिय्याह का  
 १८ जिक्की मिन्थामीन का मोअद्याह का पिलतै, बिलगा का  
 १९ शम्मू शमायाह का यहोनातान, योयारीब का मत्तनै  
 २० यदायाह का उज्जी, सल्लै का कल्लै आमोक का एजेर,  
 २१ हिलिकय्याह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल ।  
 २२ एल्याशीब योयादा योहानान और यहू के दिनों में  
 लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते  
 थे और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे  
 २३ जाने थे । जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे  
 उन के नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक  
 २४ इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे । और लेवीयों के  
 मुख्य पुरुष थे अर्थात् हसब्याह शेरैब्याह और कदमीएल  
 का पुत्र येशू और उन के साम्हने उन के भाई परमेश्वर  
 के जन दाऊद की आज्ञा के अनुसार आम्हने साम्हने  
 २५ स्तुति और धन्यवाद करने पर उठरे थे । मत्तन्याह  
 बकबुक्याह ओबद्याह मशुल्लाम तल्मोन और अक्कूब  
 फाटक के पास के भयडारों का पहरा देनेहारे डेवडीदार  
 २६ थे । योयाकीम के दिनों ने जो योसादाक का पोता और  
 येशू का पुत्र था और नहेम्याह अधिपति और एज्रा  
 अधिपति याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे ॥
- (यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा)
- २७ और यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय  
 लेवीय अपने सब स्थानों में बूढ़े गये कि यरूशलेम को  
 पहुंचाये जाएं जिस से आनन्द और धन्यवाद करके और  
 भाँक सारंगी और बीया बजाकर और गाकर उस की  
 २८ प्रतिष्ठा करें । सो गवैयों के सन्तान यरूशलेम के चारों  
 २९ ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से, और बेत-  
 गिलगाल से और गेवा और अजमावेत के खेतों से एकट्टे  
 हुए क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आस पास गांव बसा

लिये थे । तब याजकों और लेवीयों ने अपने अपने को ३०  
 शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और  
 शहरपनाह को भी शुद्ध किया । तब मैं ने यहूदी हाकिमों ३१  
 को शहरपनाह पर चढ़ाकर दो बड़े दल ठहराये जो धन्य-  
 वाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे । इन में से एक  
 दल तो दक्खिन ओर अर्थात् कूड़ाफाटक की ओर शहर-  
 पनाह के ऊपर ऊपर से चला । और उस के पीछे पीछे ये ३२  
 चले अर्थात् होशयाह और यहूदा के आधे हाकिम, और ३३  
 अजर्याह एज्रा मशुल्लाम, यहूदा मिन्थामीन शमायाह ३४  
 और थिर्मर्याह, और याजकों के कितने पुत्र तुरहियां लिये ३५  
 हुए अर्थात् कर्याह जो योहानान का पुत्र था यह  
 शमायाह का पुत्र यह मत्तन्याह का पुत्र यह मीकायाह  
 का पुत्र यह जक्कूर का पुत्र यह आसाप का पुत्र था,  
 और उस के भाई शमायाह अजरेल मिललै गिललै माए ३६  
 नतनेल यहूदा और हनानी परमेश्वर के जन दाऊद के  
 बाजे लिये हुए । और उन के आगे आगे एज्रा शास्त्री  
 चला । ये सोताफाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर ३७  
 चढ़ शहरपनाह की ऊंचाई पर से चल कर दाऊद के  
 भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जलफाटक तक  
 पहुंचे । और धन्यवाद करने और धूमधाम से चलनेहारों ३८  
 का दूसरा दल और उन के पीछे पीछे मैं और आधे लोग  
 उन से मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से भट्टों के ३९  
 गुम्मत के पास से चौड़ी शहरपनाह तक, और एप्रैम के  
 फाटक और पुराने फाटक और मल्लुतीफाटक और हननेल  
 के गुम्मत और हम्मेआ नाम गुम्मत के पास से होकर  
 भेड़ फाटक लो चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े  
 हो गये । तब धन्यवाद करनेहारों के दोनों दल परमेश्वर ४०  
 के भवन में खड़े हो गये और मैं और मेरे साथ आधे  
 हाकिम, और एल्याकीम मासेयाह मिन्थामीन मीकायाह ४१  
 एल्योएनै जकर्याह और हनन्याह नाम याजक तुरहियां  
 लिये हुए, और मासेयाह शमायाह एलाजार उज्जी यहो- ४२  
 हानान मलिकय्याह एलाम और एजेर खड़े हुए । और  
 गवैये जिन का मुखिया थिज्रह्याह था सो ऊँचे स्वर से  
 गाते बजाते रहे । उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेलबलि ४३  
 चढाये और आनन्द किया क्योंकि परमेश्वर ने उन को  
 बहुत ही आनन्दित किया था सो स्त्रियों और बालबच्चों  
 ने भी आनन्द किया और यरूशलेम के आनन्द की  
 ध्वनि दूर दूर लो पहुंच गई ॥

(उपासना आदि का प्रबन्ध)

उसी दिन खजनों के उठाई हुई भेंटों के पहिली ४४  
 पहिली उपज और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी  
 उठराये गये कि उन में नगर नगर के खेतों के अनुसार



वे वस्तुएं संचय करे जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवीयों के भाग ठहरी थीं क्योंकि यहूदी हाजिर होनेहारे याजकों और लेवीयों के कारण आनन्दित हुए ।  
 ४३ सो वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे और गवैये और डेवढीदार भी दाऊद और उस के पुत्र सुलैमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही  
 ४६ करते रहे । प्राचीनकाल अर्थात् दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान होते थे और परमेश्वर की  
 ४७ स्तुति और धन्यवाद के गीत गाये जाते थे । और जेरुसालेम और नहेम्याह के दिनों में सारे इस्राएली गवैयों और डेवढीदारों के दिन दिन के भाग देते रहे और लेवीयों के भंश पवित्र करके देते थे और लेवीय हारून की सन्तान के भंश पवित्र करके देते थे ॥

(कुरीतियों का सुधारा जाना)

### १३. उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को

पढ़कर सुनाई गई और उस में यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी वा मोआबी  
 २ परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने ने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट न की बरन विलाम को उन्हें स्नाप देने के लिये दक्षिणा देकर बुलवाया तौभी हमारे परमेश्वर ने स्नाप की सन्ती  
 ३ आशिष ही दिलाई । यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने ने इस्राएल में से मिली जुली हुई भीड़ को अलग कर दिया ॥  
 ४ इस से पहिले एल्याशीब याजक जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबियाह का  
 ५ संधी था, उस ने तोबियाह के लिये एक बड़ी कोठरी ठहरा रखी थी जिस में पहिले अन्नबाल का सामान और लोभान और पात्र और अनाज नये दाखमधु और टटके तेल के दशमांश जिन्हें लेवीयों गवैयों और डेवढीदारों को देने की आज्ञा थी और याजकों के लिये उठाई हुई  
 ६ भेंटें भी रखी जाती थीं । पर उस सारे समय में यरुशलेम में न रहता था क्योंकि बाबेल के राजा अर्तक्षत्र के बत्तीसवें बरस में मैं राजा के पास गया फिर कितने दिन  
 ७ पीछे राजा से छुट्टी मांगकर, मैं यरुशलेम को आया तब मैं ने जान लिया कि एल्याशीब ने तोबियाह के लिये परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी ठहरा  
 ८ कर क्या ही बुराई की है । सो मैं ने बहुत बुरा माना और तोबियाह का सारा धरलू सामान उस कोठरी में  
 ९ से फेंक दिया । तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गईं और मैं ने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबाल  
 १० का सामान और लोभान उन में फिर रखा दिया । फिर मैं ने जान लिया कि लेवीयों के भाग नहीं दिये गये और इस

कारण काम करनेहारे लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गये हैं । तब मैं ने हाकिमों को डांटकर कहा ११ परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है । फिर मैं ने उन को हकट्टा करके एक एक को उस के स्थान पर उठवा दिया । तब से सब यहूदी अनाज नये दाखमधु और टटके तेल के १२ दशमांश भण्डारों में लाने लगे । और मैं ने भण्डारों के १३ अधिकारी शैलेम्याह याजक और सादोक मुंशी को और लेवीयों में से पदायाह को और उन के नीचे हानान को जो मत्तन्याह का पोता और जस्कूर का पुत्र था ठहरा दिया वे तो विश्वासयोग्य गिने जाते थे और अपने १४ भाइयों के बीच बांटना उन का काम था । हे मेरे परमेश्वर मेरा यह काम मेरे हित के लिये स्मरण रख और जो जो सुकर्म मैं ने अपने परमेश्वर के भवन और उस में की आराधना के विषय किये हैं उन्हें न बिसरा १ ॥

उन्हीं दिनों में मैं ने यहूदा में कितनों को देखा जो १५ विश्रामदिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गदहों पर लादते थे वैसे ही वे दाखमधु दाख अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्रामदिन को यरुशलेम में लाते थे तब जिस दिन वे भोजनवस्तु बेचते थे उसी दिन मैं ने उन को चिता दिया । फिर उस १६ में सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरुशलेम में विश्रामदिन को बेचा करते थे । सो मैं ने यहूदा के रईसों को डांटकर १७ कहा तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्रामदिन को अपवित्र करते हो । क्या हमारे पुरखा ऐसा न करते १८ थे और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सारी विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली तौभी तुम विश्रामदिन को अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का कोप और भी भड़काते हो । सो जब विश्रामदिन के पहिले दिन १९ को यरुशलेम के फाटकों के आसपास अघेरा होने लगा तब मैं ने आज्ञा दी कि उन के पल्ले बन्द किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामदिन के पूरे होने तक खोलें न जाएं तब मैं ने अपने कितने सेवकों को फाटकों के अधिकारी ठहरा दिया इस लिये कि विश्रामदिन को कोई बोझ भीतर आने न पाये । सो व्योपारी २० और भांति भांति के सौदे के बेचनेहारे यरुशलेम के बाहर दो एक बेर टिके । तब मैं ने उन को चिताकर २१ कहा तुम लोग शहरपनाह के साम्हने क्यों टिकते हो यदि तुम फिर ऐसा करो तो मैं तुम पर हाथ बड़ाऊंगा सो उस समय से वे फिर विश्रामदिन को न आये । तब मैं २२

(१) मूल में मिटा ।

ने लेवीयों को आज्ञा दी कि अपने अपने कां शूद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिये आया करो इसलिये कि विश्रामदिन पवित्र माना जाए । हे मेरे परमेश्वर मेरे हित के लिये यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस कर ॥

- २३ फिर उन्हीं दिनों में मुझ को ऐसे यहूदी देख पड़े जिन्होंने अशदोदी अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थीं । और उन के लड़केवालों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे २४ दोनों जाति की बोली बोलते थे । सो मैं ने उन को डांटा और कोसा और उन में से कितनों को पिटा दिया और उन के बाल नुचवाये और उन को परमेश्वर की यह किरिया खिलाई कि हम अपनी बेटियां उन के बेटों के साथ न ब्याहेंगे और न अपने लिये वा २५ अपने बेटों के लिये उन की बेटियां ब्याह लेंगे । क्या इस्राएल का राजा सुलैमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा

था तौभी बहुतेरी जातियों में उस के तुल्य कोई राजा न हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था और परमेश्वर ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा किया पर उस को भी अन्यजाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया । सो २७ क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि बिरानी स्त्रियां ब्याहकर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें । और एल्यारीब महायाजक के पुत्र येयादा का एक पुत्र २८ हेरोनी सम्बलत का दामाद हुआ था सो मैं ने उस को अपने पास से भगा दिया । हे मेरे परमेश्वर उन की हानि २९ के लिये याजकपद और याजकों और लेवीयों की वाचा का तोड़ा जाना स्मरण रख । सो मैं ने उन को सब ३० अन्यजातियों से शूद्ध किया और एक एक याजक और लेवीय की बारी और काम ठहराया । फिर मैं ने लकड़ी ३१ की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिये और पहिली पहिली उपज के देने का प्रबन्ध किया । हे मेरे परमेश्वर मेरे हित के लिये मेरा स्मरण रख ॥

## एस्तेर नाम पुस्तक ।

(क्षयर्य की जेवनार के समय वशती का पटरानी क पद से उतारा जाना)

### १. क्षयर्य नाम राजा के दिनों में वे बातें हुईं ।

- यह बड़ी क्षयर्य है जो एक सी सताईस प्रान्तों पर अर्थात् हिन्दुस्तान से लेकर कृश १ देश लों राज्य करता था । उन्हीं दिनों में जब क्षयर्य राजा अपनी उस राजगद्दी पर बिराज रहा था जो शूशन ३ नाम राजगढ़ में थी, उस ने अपने राज्य के तीसरे बरस में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की जेवनार की । फारस और मादै के सेनापति और प्रान्त प्रान्त ४ के प्रधान और हाकिम उस के सन्मुख आ गये । और वह उन्हें बहुत दिन बरन एक सी अस्सी दिन लों अपने राजविभव का धन और अपने माहात्म्य के अनमोल ५ पदार्थ दिखाता रहा । इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सभी की भी जो शूशन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे राजभवन की बारी के आगन में ६ सात दिन की जेवनार की । वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले रंग के थे और सन और बैजनी रंग की डोरियों से चाँदी के लुल्लो में जो संगमर्मर के खंभों से लगे हुए थे

और वहाँ की चौकियां सोने चाँदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमर्मर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी । उस जेवनार में राजा के योग्य ७ दाखमधु डौल डौल के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था । पीना ८ तो नियम के अनुसार होता था किसी को बरबस नहीं पिलाया जाता क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भण्डारियों को आज्ञा दी थी कि जो पाहुन जैसा चाहे उस के साथ वैसा ही बर्ताव करना । वशती रानी ने भी ९ राजा क्षयर्य के राजभवन में स्त्रियों की जेवनार की । सातवें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था १० तब उस ने महूमान बिजता हर्वोना बिगता अश्वगता जेतेर और कर्कस नाम सातों खोजों को जो क्षयर्य राजा के सन्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी, कि ११ वशती रानी को राजमुकुट धारण किये हुए राजा के सन्मुख ले आओ इसलिये कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उस की सुन्दरता प्रगट हो । वह तो देखने में रूपवती थी । खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा १२ पाकर वशती रानी ने आने से नाह की सो राजा बड़े

१३ क्रोध से जलने लगा । तब राजा ने समय समय का भेद जाननेहारों पण्डितों से पूछा (राजा तो नीति और न्याय के सब जाननेहारों से ऐसा किया करता था । और उस के पास कर्शाना शेतार अदमाता तर्शाश मेरेस मर्शना और ममूकान नाम फारस और मादै के छारों खोजे थे जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर विराजते थे) । राजा ने पूछा कि बशती रानी ने राजा क्षयर्ष की खोजों से दिलाई हुई आज्ञा न मानी तो हमें नीति के अनुसार उस से क्या करना चाहिये । तब ममूकान ने राजा और हाकिमों के सुनते उत्तर दिया बशती रानी ने जो टेढ़ा काम किया तो न केवल राजा से किया सारे हाकिमों से और उन सारे देशों के लोगों से भी किया जो राजा क्षयर्ष के सब प्रान्तों में रहते हैं । कैसे कि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों को मिलेगी और जब यह कहा जायगा कि राजा क्षयर्ष ने तो बशती रानी को अपने साम्हने ले आने की आज्ञा दी पर वह न आई तब वे अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी । और आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां रानी का काम सुनकर राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी जिस से बहुत ही अपमान और कोप होगा । यदि राजा का भाए तो उस की और से यह आज्ञा निकले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए जिस से न बदल सके कि बशती राजा क्षयर्ष के सन्मुख फिर आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे जो उस से अच्छी हो । और जब राजा की यह आज्ञा उस के सारे बड़े राज्य में सुनाई जाएगी तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदरमान करती रहेंगी । यह वचन राजा और हाकिमों को माया और राजा ने ममूकान का कहा माना, और अपने राज्य में अर्थात् एक एक प्रान्त के अहूरों में और एक एक जाति की बोली में चिट्ठियां भेजीं कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपने लोगों की बोली बोला करें ॥

(एस्तेर का पटरानी बन जाना)

२. इन बातों के पीछे जब राजा क्षयर्ष की जलजलाहट ठंडी हो गई तब उस ने बशती की और जो काम उस ने किया था और जो उस के विषय ठाना गया था उस की भी सुधि ली । तब राजा के सेवक जो उस के टहलुए थे कहने लगे राजा के लिये सुन्दर सुन्दर जवान कुंवारियां ढूंढी जाएं । और राजा अपने राज्य के सब प्रान्तों में लोगों को इसलिये ढहराए कि सब सुन्दर जवान कुंवारियों को शूशन गढ़ के

रनवास में इकट्ठी करके स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे को सोप दें और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएँ उन्हें दी जाएं । तब उन में से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम होए सो बशती के स्थान पर पटरानी हो जाए । यह बात राजा को अच्छी लगी तो उस ने ऐसा ही किया ॥

शूशन गढ़ में मोर्दकै नाम एक यहूदी रहता था जो कीरा नाम एक पिन्यामीनी का परपोता शिमी का पोता और याईर का पुत्र था । वह उन बन्धुओं के साथ यरूशलेम से बन्धुआई में गया था जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बन्धुआ करके ले गया था । उस ने हदस्सा नाम अपनी चचेरी बहिन को पाला पोसा था जो एस्तेर भी कहावती थी । क्योंकि उस के माता पिता कोई न था और वह लड़की सुन्दर और रूपवती थी और जब उस के माता पिता मर गये तब मोर्दकै ने उस को अपनी बेटी करके पाला । जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाये गये और बहुत सी जवान स्त्रियां शूशन गढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गईं तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सोपी गई । और वह जवान स्त्री उस की दृष्टि में अच्छी लगी और वह उस से प्रसन्न हुआ तो उस ने बिना बिलम्ब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएँ और उस का भोजन और उस के लिये चुनी हुई सात सहेलियां भी दीं और उस को और उस की सहेलियों को रनवास में सभ से अच्छा रहने का स्थान दिया । एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल क्योंकि मोर्दकै ने उस को आज्ञा दी थी कि उसे न बताना । मोर्दकै तो दिन दिन रनवास के आंगन के साम्हने टहलता था इसलिये कि जाने की एस्तेर कैसी है और उस को क्या होगा । जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए (और यह उस समय हुआ जब उस के साथ स्त्रियों के लिये ढहराये हुए नियम के अनुसार बारह मास लों व्यवहार किया गया था अर्थात् उन के शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गये कि छः मास लों गंधरस का तेल लगाया जाता था और छः मास लों सुगंधद्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था), तब इस प्रकार से कन्या राजा के पास जाती थी कि जो कुछ उस ने मांगा वह उसे दिया गया और वह उसे लिये हुए रनवास से राजभवन में गई । सांभ को तो वह गई और बिहान को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के रखवाले राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में हो गई और यदि राजा ने उस

से प्रसन्न हो उस को नाम लेकर न बुलवाया हो तो वह  
 १५ उस के पास फिर न गई । जब मोर्दकै के चचा अभीहेल  
 की बेटी एस्तेर जिस को मोर्दकै ने बेटी करके रखा था  
 उस की राजा के पास जाने की बारी पहुँच गई तब जो  
 कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिये  
 ठहराया था उस से अधिक उस ने और कुछ न मांगा ।  
 और जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उस से प्रसन्न हुए ।  
 १६ वे एस्तेर राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उस के राज्य  
 के सातवें बरस के तेबेत नाम दसवें महीने में पहुँचाई  
 १७ गई । और राजा ने एस्तेर से और सब स्त्रियों से अधिक  
 प्रीति की और और सब कुंवारियों से अधिक उस के  
 अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई इस कारण उस  
 ने उस के सिर पर राजमुकुट धरा और उस को बशती  
 १८ के स्थान पर रानी किया । तब राजा ने अपने सब हाकिमों  
 और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके उसे एस्तेर  
 की जेवनार कहा और प्रान्तों में छुट्टी दिलाई और अपनी  
 १९ उदारता के योग्य इनम भी बांटे । जब कुंवारियाँ दूसरी  
 बार इकट्ठी की गईं तब मोर्दकै राजभवन के फाटक में  
 २० बैठा था । तब तक एस्तेर ने अपनी जाति और कुल न  
 बताये थे क्योंकि मोर्दकै ने उस को ऐसी आज्ञा दी थी  
 और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उस  
 २१ के यहाँ पलने के समय मानती थी । उन्हीं दिनों में जब  
 मोर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था  
 राजा के खोजे जो डेवढीदार भी थे उन में से बिक्रतान  
 और तेरेश नाम दो जनों ने राजा क्षयर्ष से रूठकर उस  
 २२ पर हाथ चलाने की युक्ति की । यह बात मोर्दकै को  
 मालूम हुई और उस ने एस्तेर रानी को बताई और  
 एस्तेर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को जता दिया ।  
 २३ तब तहकीकात होने पर यह बात सच निकली और वे  
 दोनों शूद्र पर लटकाये गये और यह शूद्रान्त राजा के  
 साम्हने इतिहास का पुस्तक में लिखा गया ॥

(हामान के द्रोह के कारण यहूदियों के सत्यानाश  
 की आज्ञा का दिया जाना)

३. इन बातों के पीछे राजा क्षयर्ष ने

अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान  
 को बड़ा पद दिया और उस को बढ़ाकर उस के लिये उस  
 के संग के सब हाकिमों के सिंहासनों से ऊँचा सिंहासन ठह-  
 २ राया । और राजा के सारे कर्मचारी जो राजभवन के  
 फाटक में रहा करते थे हामान के साम्हने झुककर दण्ड-  
 बत् करते थे क्योंकि राजा ने उस के विषय ऐसी  
 आज्ञा दी थी पर मोर्दकै न तो झुकता और न उस को  
 ३ दण्डवत् करता था । सो राजा के कर्मचारी जो राज-

भवन के फाटक में रहा करते थे उन्हीं ने मोर्दकै से  
 पूछा तू राजा की आज्ञा क्यों टाल देता है । जब वे उस से  
 ४ दिन दिन ऐसा ही कहते रहे और उस ने उन की न  
 मानी तब उन्हीं ने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दकै की  
 बातें ठहरेंगी कि नहीं हामान को बता दिया । उस ने  
 उन को तो बताया था कि यहूदी हूँ । जब हामान ने  
 ५ देखा कि मोर्दकै नहीं झुकता और न मुझ को दण्डवत्  
 करता है तब बहुत ही जल उठा । और उस ने केवल  
 ६ मोर्दकै पर हाथ चलाना तुच्छ जाना क्योंकि उन्हीं ने  
 हामान को यह बता दिया था कि मोर्दकै किस जाति  
 का है सो हामान ने क्षयर्ष के राज्य भर में रहनेहारे सारे  
 यहूदियों को भी मोर्दकै की जाति जानकर विनाश कर  
 डालने का यत्न किया । राजा क्षयर्ष के बारहवें बरस के  
 ७ नीसान नाम पहिले महीने में हामान ने अदार नाम  
 बारहवें महीने लों के एक एक दिन और एक एक महीने  
 के लिये पूर अर्थात् चिट्ठी अपने साम्हने डलवायी । और  
 ८ हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा तेरे राज्य के सब प्रान्तों  
 में रहनेहारे देश देश के लोगों के बीच तितर बितर और  
 छिटकी हुई एक जाति है जिस के नियम और सब लोगों  
 के नियमों से अलग हैं और वे राजा के कानून पर नहीं  
 चलते इसलिये उन्हें रहने देना राजा को उचित नहीं  
 है । सो यदि राजा को भाए तो उन्हें नाश करने की  
 ९ आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भण्डारियों के हाथ में  
 राजभण्डार में पहुँचाने के लिये दस हजार किष्कार चाँदी  
 दूंगा । तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर  
 १० अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को जो यहूदियों का  
 बैरी था दे दी । और राजा ने हामान से कहा वह  
 ११ चाँदी तुझे दो गई है और वे लोग भी कि तू उन से  
 जैसा तेरा जी चाहे वैसाही बताव करे । सो उसी पहिले  
 १२ महीने के तेरहवें दिन को राजा के लेखक बुलाये गये  
 और हामान की सारी आज्ञा के अनुसार राजा के सब  
 अधिपतियों और सब प्रान्तों के प्रधानों और देश देश के  
 लोगों के हाकिमों के लिये चिट्ठियाँ एक एक प्रान्त के  
 अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भोली में राजा  
 क्षयर्ष के नाम से लिखी गईं और उन में राजा की अंगूठी  
 की छाप लगाई गई । और राज्य के सब प्रान्तों में इस  
 १३ आज्ञा की चिट्ठियाँ हरकगों के द्वारा भेजी गईं कि एक  
 ही दिन में अर्थात् अदार नाम बारहवें महीने के तेरहवें  
 दिन को क्या जवान क्या बूढ़ा क्या ली क्या बालक सब  
 यहूदी विध्वंस घात और नाश किये जाएँ और उन की  
 धन संपत्ति लूटी जाए । उस आज्ञा के लेख की नकलें  
 १४ सारे प्रान्तों में खुली हुई भेजी गईं कि सब देशों के लोग

१५ उस दिन के लिये तैयार हो जाएं। यह आज्ञा शूशन गद्द में दी गई और हरकारे राजा की आज्ञा से फुर्ती के साथ निकल गये तब राजा और हामान तो जेवनार में बैठ गये पर शूशन नगर में घबराहट हुई ॥

(मोर्दकै एस्तेर को बिनती करने के लिये उसकाता है)

**४. जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या**

किया गया तब वस्त्र फाड़ टाट

पहिन राख डालकर नगर के बीच जाकर ऊंचे और दुखभरे

२ शब्द से चिह्नाने लगा। और वह राजभवन के फाटक

के साम्हने पहुँचा टाट पहिने राजभवन के फाटक के

३ भीतर तो किसी के जाने का हुक्म न था। और एक

एक प्रान्त में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम

पहुँचा वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप और उपवास करने

और रोने पीटने लगे बरन बहुतेरे टाट पहिने और राख

४ डाले हुए पड़े रहे। और एस्तेर रानी की सहेलियों और

खोजों ने जाकर उस को बता दिया तब रानी शोक से

भर गई और मोर्दकै के पास वस्त्र भेजकर यह कहवाया

कि टाट उतार कर इन्हें पहिन ले पर उस ने उन्हें न

५ लिया। तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को

जिसे राजा ने उस के पास रहने को ठहराया था बुला-

कर आज्ञा दी कि मोर्दकै के पास जाकर बूझ ले कि यह

६ क्या बात है और इस का क्या कारण है। सो हताक

नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के साम्हने

७ था मोर्दकै के पास निकल गया। तब मोर्दकै ने उस को

बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है और हामान

ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिये राज-

भरद्वार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया यह

८ भी ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों का विनाश करने

की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी उस की एक नकल

भी उस ने हताक के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिये

दी और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने की

कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के

९ लिये गिड़गिड़ा कर बिनती कर। तब हताक ने एस्तेर के

१० पास जा मोर्दकै की बातें कह सुनाई। तब एस्तेर ने

११ हताक को मोर्दकै से यह कहने की आज्ञा दी कि, राजा

के सारे कर्मचारियों बरन राजा के प्रान्तों के सब लोगों

को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यो न

है जो आज्ञा बिना पाये भीतरी आंगन में राजा के पास

जाए उस के मार डालने ही की आज्ञा है केवल जिस की

और राजा भोने का राजदण्ड बढ़ाए वही बचता है पर

१२ मैं अब तीस दिन से राजा के पास बुलाई नहीं गई। सो

(१) मूल में पीका से पढ़ें गई।

एस्तेर की ये बातें मोर्दकै को सुनाई गई। तब मोर्दकै ने

एस्तेर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह

विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और

सब यहूदियों में से बची रहूंगी। क्योंकि जो तू इस समय

१४ चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से<sup>२</sup> यहूदियों

का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा पर तू अपने पिता

के घराने समेत नाश हांगी फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही

समय के लिये राजपद मिल गया है। तब एस्तेर ने

मोर्दकै के पास यह कहला भेजा कि, तू जाकर शूशन के

१५ सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे

निमित्त उपवास करो तीन दिन रात न तो कुछ खाओ

और न कुछ पीओ और मैं भी अग्नी सहेलियों सहित

उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं

नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और जो

नाश हो गई तो हो गई। सो मोर्दकै चला गया और

१७ एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही किया ॥

**५. तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र**

पहिन राजभवन के भीतरी आंगन

में जाकर राजभवन के साम्हने खड़ी हो गई। राजा तो

राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के साम्हने

विराजमान था। और जब राजा ने एस्तेर रानी को

२ आंगन में खड़ी हुई देखा तब वह उस से प्रसन्न हुआ

और अपने हाथ का सोने का राजदण्ड उस की और

बढ़ाया सो एस्तेर ने निकट जाकर राज दण्ड की नोक

छुई। तब राजा ने उस से पूछा है एस्तेर रानी तुझे

३ क्या चाहिये और तू क्या मांगती है मांग और तुझे आधे

राज्य तक दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा यदि राजा को

४ भाए तो आज हामान को साथ लेकर उस जेवनार में

आए जो मैं ने राजा के लिये तैयार की है। तब राजा

५ ने आज्ञा दी कि हामान को फुर्ती से ले आओ कि एस्तेर

की बात मानी जाए। सो राजा और हामान एस्तेर

की की हुई जेवनार में आये। जेवनार के समय जब

६ दाखमधु पिया जाता था तब राजा ने एस्तेर से कहा तेरा

क्या निवेदन है वह पूरा किया जाएगा और तू क्या

मांगती है मांग और आधे राज्य लो तुझे दिया

जाएगा। एस्तेर ने उत्तर दिया मेरा निवेदन और जो मैं

७ मांगती हूं सो यह है कि, यदि राजा मुझ पर प्रसन्न

हो और मेरा निवेदन सुनना और जो वर मैं मांगू वही

देना राजा को भाए तो राजा और हामान कल उस

जेवनार में आए जिसे मैं उन के लिये करूंगी और कल

मैं राजा के कहे के अनुसार करूंगी। उस दिन हामान

(२) मूल में स्थान से।

आनन्दित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया पर जब उस ने मोर्दकै के राजभवन के फाटक में देखा कि वह मेरे साम्हने न तो खड़ा होता और न थपथराता है तब

१० वह मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया । तौभी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और

११ अपनी स्त्री जेरेश को बुलावा भेजा । तब हामान ने उन से अपने धन का विभव और अपने लड़केबालों की बढ़ती और राजा ने उस को कैसे कैसे बढ़ाया और और सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद

१२ दिया था इस सब का बखान किया । हामान ने यह भी कहा कि एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जेवनार में आने न दिया और कल के लिये भी राजा के संग उस ने मुझी

१३ को नेवता दिया है । तौभी जब जब मुझे वह यहूदी मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ देख पड़ता है

१४ तब तब यह सब मेरे लेखे कुछ नहीं है ? । उस की स्त्री जेरेश और उस के सब मित्रों ने उस से कहा पचास हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मोर्दकै लटक दिया जाए तब राजा के संग आनन्द से जेवनार में जाना । इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने ऐसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया ॥

## ६. उस रात राजा को नींद न आई सो उस

की आशा से इतिहास की पुस्तक

२ लाई गई और वह पढ़कर राजा को सुनाई गई । और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षर्य के हाकिम जो डेवदोदार भी थे उन में से बिगताना और तेरेश नाम दो जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की तब

३ मोर्दकै ने इसे प्रगट किया था । तब राजा ने पूछा इस के बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई राजा के जो सेवक उस की सेवा टहल कर रहे थे उन्हो ने उस को उत्तर दिया उस के लिये कुछ भी नहीं किया

४ गया । राजा ने पूछा आंगन में कौन है उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उस ने मोर्दकै के लिये तैयार कराया था उस पर उस को लटका देने की चचा राजा

५ से करे । सो राजा के सेवकों ने उस से कहा आंगन में तो हामान खड़ा है राजा ने कहा उसे भीतर लाओ ।

६ जब हामान भीतर आया तब राजा ने उस से पूछा जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उस से क्या

करना उचित होगा हामान ने यह सोचकर कि मुझ से अधिक राजा किस की प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा ७ को उत्तर दिया जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उस के लिये कोई राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा ८ पहिनता हो और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता हो और उस के सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता हो सो लाया जाए । फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा ९ राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपे जाए कि जिस की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उस को वह वस्त्र पहिनाया जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में फिराया जाए और उस के आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिस की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उस से १० यों ही किया जाएगा । राजा ने हामान से कहा फुर्ती करके अपने कहे के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर जां कुछ तू ने कहा है उस में कुछ भी कम होने न पाए । सो हामान ने उस वरु ११ और उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहिनाया और उसे घोड़े पर चढाकर नगर के चौक में यों पुकारता हुआ फिराया कि जिस की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उस से यों ही किया जाएगा । तब मोर्दकै तो राजभवन के १२ फाटक में लौट गया पर हामान भट शोक करते और सिर ढांपे हुए अन्दर घर गया । और हामान ने अपनी १३ स्त्री जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ बखान किया जो उस पर बांता था । तब उस के बुद्धिमान मित्रों और १४ उस की स्त्री जेरेश ने उस से कहा मोर्दकै जिस से तू नीचा खाने लगा है यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रवल न होगा उस से पूरी रीति नीचा ही खाएगा । वे उस से बातें कर ही रहे थे कि राजा के १५ खोजों ने आकर हामान को एस्तेर की की हुई जेवनार में फुर्ती से पहुंचा दिया ॥

## ७. सो राजा और हामान एस्तेर रानी की

जेवनार में आ गये । उस तिसरे २ दिन को दाखमधु पीते पीते राजा ने एस्तेर से फिर पूछा है एस्तेर रानी तेरा क्या निवेदन है वह पूरा किया जाएगा और तू क्या मांगती है मांग और आधे राज्य तक तुझे दिया जाएगा । एस्तेर रानी ने उत्तर दिया है राजा ३ यदि तू मुझ पर प्रसन्न हो और राजा को यह भाए भी तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले । क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग ४ बेच डाले गये हैं कि हम सब विध्वंस घात और नाश

(१) मूल में यह सब मेरे-बराबर नहीं ।

किये जाएँ । यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिये बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता । तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से पूछा वह कौन है और कहाँ है जिस ने ऐसा करने की मनसा की है । एस्तेर बोली वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है तब हामान राजा रानी के साम्हने भय खा गया । राजा तो जल-जलाहट में आ मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी एस्तेर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ । जब राजा राजभवन की बारी से दाख-मधु पीने के स्थान से लौट आया तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है पड़ा है और राजा ने कहा क्या यह घर ही में मेरे साम्हने ही रानी से बरबस करना चाहता है । राजा के मुँह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुँह दाँप दिया । तब राजा के साम्हने हाजिर रहनेहारे खोजों में से हर्षोना नाम एक ने राजा से कहा हामान के यहां पचास हाथ ऊँचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उस ने मोर्दकै के लिये बनवाया है जिस ने राजा के हित की बात कही थी । राजा ने कहा उस को उसी पर लटका दो । सो हामान उसी खंमे पर जो उस ने मोर्दकै के लिये तैयार कराया था लटका दिया गया । इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई ॥

(यहूदियों को अपने शत्रुओं के बान करने की अनुमति मिलनी)

८. उसी दिन राजा क्षयर्ष ने यहूदियों के विरोधी हामान का घरबार एस्तेर रानी को दे दिया और मोर्दकै राजा के साम्हने आया क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था कि वह मेरा कौन है । तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उस ने हामान से ले ली थी उतार कर मोर्दकै को दे दी । और एस्तेर ने मोर्दकै को हामान के घरबार पर अधिकारी ठहराया । फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उस के पाँव पर गिर आसू बहा उस से गिड़गिड़ा कर बिन्ती की कि अगामी हामान की लुगई और यहूदियों की हानि की उस की की हुई युक्ति निफल की जाए । तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदण्ड बढ़ाया सो एस्तेर उठकर राजा के साम्हने खड़ी हुई, और कहने लगी यदि राजा को यह भाए और वह मुझ पर प्रसन्न हो और यह बात उस को ठीक जान पड़े और मैं भी उस को अच्छी लगती हूँ तो जो चिट्ठियाँ हम्मदाता अगामी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रान्तों के यहूदियों को

नाश करने की युक्ति करके लिखाई थीं उन को पलटने के लिये लिखा जाए । क्योंकि मैं तो अपने जाति के लोगों पर पड़नेवाली वह विपत्ति किस रीति देख सकूंगी और अपने भाइयों के सन्यानाश को मैं क्योंकर देख सकूंगी । तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से और मोर्दकै यहूदी से कहा मैं हामान का घरबार तो एस्तेर को दे चुका हूँ और वह फांसी के खंमे पर लटकाया गया है इस लिए कि उस ने यहूदियों पर हाथ बढ़ाया था । सो तुम अपनी सभ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उस की अंगूठी की छाप लगाई जाए उस को कोई भी पलट नहीं सकता । सो उसी समय अर्थात् सीवान नाम तीसरे महीने के तेरहवें दिन को राजा के लेखक बुलाये गये और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्दकै ने उन्हें दी सो यहूदियों और अधिपतियों और हिन्दुस्तान से ले कृश लों जो एक सौ सत्सईस प्रान्त हैं उन सभों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रान्त के अन्दरों में और एक एक देश के लोगों की बोली में और यहूदियों को उन के अक्षरों और बोली में लिखी गई, मोर्दकै ने राजा क्षयर्ष के नाम से चिट्ठियाँ लिखाकर और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगा कर बेग चलनेहारे सरकारी घोड़ों खच्चरों और साँड़नियों की डाक लगाकर हर कारों के हाथ भेज दी । इन चिट्ठियों में सब मगरो के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों अपना अपना प्राण बचाने के लिये खड़े होकर जिस जाति वा प्रान्त के लोग बल करके उन को वा उन की स्त्रियों और बालबच्चों को दुःख देना चाहें उन को विध्वंस घात और नाश करने और उन की धन संपत्ति लूट लेने पाएँ । और यह राजा क्षयर्ष के सब प्रान्तों में एक दिन को किया जाए अर्थात् अदार नाम बारहवें महीने के तेरहवें दिन को । इस आज्ञा के लेख की नकलें सारे प्रान्तों में सब देशों के लोगों के पास खुनी हुई भेजी गईं इस लिये कि यहूदी उस दिन के लिये अपने शत्रुओं से पलटा लेने को तैयार हों । सो हरकारे बेग चलनेहारे सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गये और यह आज्ञा शशान राजगढ़ में दी गई थी । तब मोर्दकै नील और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहिने सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे और सूक्ष्म सन और बैजनी रंग का बागा पहिने हुए राजा के सन्मुख से निकल गया । और शशान नगर के लोग आनन्द के मारे ललकार उठे ।

१६, १७ यहूदियों को आनन्द हर्ष और प्रतिष्ठा हुई । और जिस जिस प्रान्त और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे वहाँ वहाँ यहूदियों की आनन्द और हर्ष हुआ और उन्होंने जेवनार करके उस दिन को खुशी का दिन माना । और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गये इस कारण से कि उन के मन में यहूदियों का डर समा गया ॥

(पूरीम नाम पर्व का उद्घोषणा जाना)

## ६. अदार नाम बारहवें महीने के तेरहवें दिन को जिस दिन राजा की

आज्ञा और नियम पूरा होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आज्ञा रखते थे पर इस के उलटे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए उस दिन, २ यहूदी लोग राजा क्षयर्य के सब प्रान्तों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उन की हानि करने का यत्न करें उन पर हाथ डालें । और कोई उन का साम्हना न कर सका क्योंकि उन का डर देश देश के सब लोगों के ३ मन में समाया था । बरन प्रान्तों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की क्योंकि उन के मन में मोर्दकै का डर समा गया । मोर्दकै तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उस की कीर्त्ति सब प्रान्तों में फैल गई बरन उस पुरुष मोर्दकै की महिमा बढ़ती चली गई । ४ सो यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नाश कर डाला और अपने बैरियों से ६ अपनी इच्छा के अनुसार भर्त्ताव किया । और शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने पांच सौ मनुष्यों को घात करके ७ नाश किया । और उन्होंने पशुन्दता दल्लोग अस्याता, ८, ९ गोरता अदल्या अरीदाता, गर्मशता अरीसै अरीदै और १० वैजाता नाम, हम्मदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के दसों पुत्रों को भी घात किया पर उन के धन ११ को न लूटा । उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किये १२ हुआ की गिनती राजा को सुनाई गई । तब राजा ने एस्तेर राना से कहा यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में पांच सौ मनुष्य और हामान के दसों पुत्र भी घात करके नाश किये हैं फिर राज्य के और और प्रान्तों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा अब इस से अधिक तेरा निवेदन क्या है वह पूरा किया जाएगा और तू क्या १३ मांगती है वह भी तुझे दिया जाएगा । एस्तेर ने कहा यदि राजा को भाए तो शूशन के यहूदियों को आज की नाई कल भी करने दिया जाए और हामान के दसों पुत्र १४ फांसी के खंभों पर लटकाये जाएं । राजा ने कहा ऐसा

क्रिया जाए सो आज्ञा शूशन में दी गई और हामान के दसों पुत्र लटकाये गये । और शूशन के यहूदियों ने अदार १५ महीने के चौदहवें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में तीन सौ पुरुषों को घात किया पर धन को न लूटा । राज्य के १६ और और प्रान्तों के यहूदी इकट्ठे होकर अपना अपना प्राण बचाने को खड़े हुए और अपने बैरियों में से पचहत्तर हजार मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया पर धन को न लूटा । यह अदार महीने के १७ तेरहवें दिन को किया गया और चौदहवें दिन को उन्होंने विश्राम करके जेवनार और आनन्द का दिन उद्घोषणा । पर शूशन के यहूदी अदार महीने के तेरहवें दिन को और १८ उसी महीने के चौदहवें दिन को इकट्ठे हुए और उसी महीने के पंद्रहवें दिन को उन्होंने विश्राम करके जेवनार और आनन्द का दिन उद्घोषणा । इस कारण दिहाती यहूदी १९ जो बिना शहरपनाह की बस्तियों में रहते हैं वे अदार महीने के चौदहवें दिन को आनन्द और जेवनार और खुशी और आपस में बेना भेजने का दिन करके मानते हैं ।

इन बातों का वृत्तान्त लिखकर मोर्दकै ने राजा क्षयर्य २० के सब प्रान्तों में क्या निकट क्या दूर रहनेहारे सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजकर यह आज्ञा दी, कि २१ अदार महीने के चौदहवें और उसी महीने के पंद्रहवें दिनों को बरस बरस माना करें, जिन में यहूदियों ने २२ अपने शत्रुओं से विश्राम पाया और वह महीना माना करे जिस में शोक आनन्द से और विलाप खुशी से बदला गया और उन को जेवनार और आनन्द और एक दूसरे के पास बेना भेजने और कंगालों को दान देने के दिन मानें । और यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था २३ और जैसा मोर्दकै ने उन्हें लिखा वैसा ही करना ठान लिया । क्योंकि हम्मदाता अगागी का पुत्र हामान जो २४ सब यहूदियों का विरोधी था उस ने यहूदियों के नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिये पूरा अर्थात् चिट्ठी डाली थी, पर जब राजा २५ ने यह जान लिया तब उस ने आज्ञा देकर लिखा कि जो कुछ युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की सो उसी के सिर पर पलट आए सो वह और उस के पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाये गये । इस कारण उन दिनों का २६ नाम पूरा शब्द से पूरीम रक्खा गया । इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उस के कारण भी, यहूदियों ने अपने अपने लिये और अपनी सन्तान २७ के लिये और उन सबों के लिये भी जो उन में मिल जाएं यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार



बरस बरस उस के ठहराये हुए समय में हम ये दो दिन  
 २८ मानें, और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रान्त प्रान्त नगर नगर  
 में ये दिन स्मरण किये और माने जाएं और इन पूरिम  
 नाम दिनों का मानना यहूदियों में से जाता न रहे और न उन  
 २९ का स्मरण उन के बंश से मिट जाए । फिर अथीहेल की  
 बेटी एस्तेर रानी और मोर्दकै यहूदी ने पूरिम के विषय  
 की यह दूसरी चिट्ठी स्थिर करने को बड़े अधिकार के  
 ३० साथ लिखी । इस की नकलें मोर्दकै ने क्षयर्ष के राज्य के  
 एक सौ सत्ताईसों प्रान्तों के सब यहूदियों के पास शान्ति  
 देनेहारी और सबी बातों के साथ इस आशय से मैजीं,  
 ३१ कि पूरिम के उन दिनों के विशेष ठहराये हुए समयों में  
 मोर्दकै यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा के अनुसार  
 और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिये  
 ठान लिया था उस के अनुसार भी उपवास और विलाप

किये जाएं । और पूरिम के विषय का यह नियम एस्तेर ३२  
 की आज्ञा से भां स्थिर किया गया और उस की चर्चा  
 पुस्तक में लिखी गई ॥

(मोर्दकै का माहात्म्य)

१०. और राजा क्षयर्ष ने देश और समुद्र  
 के टापू दोनों पर कर लगाया ।

और उस के माहात्म्य और पराक्रम के कामों और मोर्दकै २  
 की उस बड़ाई का पूरा ब्योरा जो राजा ने उस की कर  
 दी सो क्या मादै और फारस के राजाओं के इतिहास  
 की पुस्तक में नहीं लिखा है । निदान यहूदी मोर्दकै ३  
 क्षयर्ष राजा ही के नीचे था और यहूदियों के लेखे  
 बड़ा था और उस के सब भाई उस से प्रसन्न रहे वह  
 अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा और अपने सब  
 लोगों से शान्ति की बातें कहा करता था ॥

## अय्यूब नाम पुस्तक ।

(अय्यूब का भारी परीक्षा में पढ़ना)

१. उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था  
 जो खरा और सीधा था और परमेश्वर

२ का भय मानता और बुराई से परे रहता था । उस के सात  
 ३ बेटे और तीन बेटियां उत्पन्न हुईं । फिर उस के सात  
 हजार भेड़बकरियां तीन हजार ऊंट पांच सौ जोड़ी बैल  
 और पांच सौ गदहियां और बहुत ही दास दासियां थीं  
 बरन उस के इतनी संपत्ति थी कि प्रबियों में वह सब से  
 ४ बड़ा था । उस के बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे  
 के घर में खाने पीने की जाया करते और अपनी तीनों  
 बहिनों को अपने संग खाने पीने के लिये बुलवा भेजते  
 थे । और जब जब जेबनार के दिन पूरे होते तब तब  
 अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठ  
 कर उन की गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था  
 क्योंकि अय्यूब सोचता था कि क्या जाने मेरे लड़कों ने  
 पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो । इसी रीति  
 अय्यूब किया करता था ॥

५ एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उस के साम्हने  
 हाजिर होने का आये और उन के बीच शैतान भी आया ।  
 ७ यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है शैतान ने

यहोवा को उत्तर दिया पृथिवी पर इधर उधर घूमते फिरते  
 और डोलते डालते आया हूँ । यहोवा ने शैतान से पूछा ८  
 क्या तू ने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथिवी  
 पर उस के तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने-  
 हारा और बुराई से परे रहनेवाला मनुष्य और कोई नहीं  
 है । शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्या अय्यूब परमेश्वर ९  
 का भय बिना लाभ के मानता है । क्या तू ने उस की १०  
 और उस के घर की और उस के सब कुछ के चारों ओर  
 बाड़ा नहीं बांधा तू ने तो उस के काम पर आशिष दी  
 है और उस की संपत्ति देश भर में फैल गई है । पर अब ११  
 अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उस का है उसे छू तब वह  
 निश्चय तुझे निधड़क छोड़ देगा । यहोवा ने शैतान से १२  
 कहा सुन जो कुछ उस का है सो सब तेरे हाथ में है  
 केवल उस के शरीर पर हाथ न लगाना । तब शैतान  
 यहोवा के साम्हने से चला गया ॥

एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर १३  
 में खाते और दाखमधु पीते थे । तब एक दूत अय्यूब के १४  
 पास आकर कहने लगा हम तो बैलों से हल जोत रहे  
 थे और गदहियां उन के पास चर रही थीं, कि शबाई १५

(१) मूल में तैरे मुख के साम्हने ।

लोग घावा करके उन को ले गये और तलवार से तेरे  
सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुम्हें  
१६ समाचार देने को आया हूँ। वह कहता ही था कि दूसरा  
भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश  
से पड़ी और उस से भेड़बकरियाँ और सेवक जलकर भस्म  
हो गये और मैं ही अकेला बचकर तुम्हें समाचार देने  
१७ को आया हूँ। वह कह ही रहा था कि एक और आकर  
कहने लगा कि कसदी लोग तीन गोल बाँधकर ऊंटों पर  
घावा करके उन्हें ले गये और तलवार से तेरे सेवकों को  
मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुम्हें समाचार देने  
१८ को आया हूँ। वह कह ही रहा था कि एक और आकर  
कहने लगा तेरे बेटे बेटियाँ बड़े भाई के घर में खाते  
१९ और दाखमधु पीते थे, कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचण्ड  
वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा भौंका मारा  
कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गये और मैं  
२० ही अकेला बचकर तुम्हें समाचार देने को आया हूँ। तब  
अय्युब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ा भूमि पर गिर  
२१ दण्डवत् करके कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा  
निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया  
२२ और यहोवा ही ने लिया यहोवा का नाम धन्य है। इन  
सारी बातों में भी अय्युब ने न तो पाप किया और न  
परमेश्वर पर मूर्खता का दोष लगाया ॥

**२. फिर** एक और दिन यहोवा परमेश्वर  
के पुत्र उस के साम्हने हाजिर  
होने को आये और उन के बीच शैतान भी उस के  
२ साम्हने हाजिर होने को आया। यहोवा ने शैतान से  
पूछा तू कहाँ से आता है शैतान ने यहोवा को उत्तर  
दिया पृथिवी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते  
३ डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तुने  
मेरे दास अय्युब पर ध्यान दिया है कि पृथिवी पर उस  
के तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय माननेहारा और  
बुराई से परे रहनेहारा मनुष्य और कोई नहीं है और  
यद्यपि तू ने मुझे उस को बिना कारण सत्यानाश करने  
को उभारा तौभी वह अब लों अपनी खराई पर बना  
४ है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया खाल के बदले  
खाल पर प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता  
५ है। परन्तु अपना हाथ बड़ाकर उस की हड्डियाँ और  
मांस छू तब निश्चय वह तुम्हें निषङ्क<sup>१</sup> छोड़ देगा।  
६ यहोवा ने शैतान से कहा सुन वह तेरे हाथ में है केवल  
७ उस का प्राण छोड़ देना। तो शैतान यहोवा के साम्हने

(१) मूल में तेरे मुँह के साम्हने ।

से निकला और अय्युब को पाँव के तलवे से ले सिर की  
चोटी लों बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्युब ८  
खुजलाने के लिये एक ठीकरा लेकर राख के बीच बैठ  
गया। तब उस की स्त्री उस से कहने लगी क्या तू अब भी ९  
अपनी खराई पर बना है परमेश्वर को छोड़ दे तब चाहे  
मर जाय तो मर जा। उस ने उस से कहा तू एक मूढ़ १०  
स्त्री की सौ बातें करती है कह तो हम जो परमेश्वर के हाथ  
से सुख लेते हैं सो क्या दुःख भी न लें। इन सारी बातों  
में भी अय्युब ने अपने मुँह से कोई पाप न किया ॥

जब तेमानी एलीपज और शह्री बिलदद और ११  
नामाती सोपर अय्युब के इन तीन मित्रों ने इस सारी  
विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी तब वे  
आपस में यह ठानकर कि हम अय्युब के पास जाकर  
उस के संग बिलाप करेंगे और उस को शांति देंगे अपने  
अपने यहां से उस के पास चले। जब उन्होंने ने दूर से १२  
आंख उठा कर अय्युब को देखा और उसे न चीन्ह सके  
तब चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना बागा फाड़ा  
और आकाश की ओर धूलि उड़ाकर अपने अपने सिर  
पर डाली। तब वे सात दिन और सात रात उस के संग १३  
भूमि पर बैठे रहे पर उस का दुःख बहुत ही बड़ा जान-  
कर किसी ने उस से एक भी बात न कही ॥

(अय्युब का अपने जन्म दिन की धिक्कारना)

**३. इस** के पीछे अय्युब मुँह खोलकर अपने  
जन्मदिन का या धिक्कारने लगा, कि २  
वह दिन जल जाए जिस में मैं उत्पन्न हुआ और ३  
वह रात भी जिस में कहा गया कि बेटे का  
गर्भ रहा ॥  
वह दिन अधियारा होए ४  
ऊपर से ईश्वर उस की सुधि न ले  
और न उस में प्रकाश होए ॥  
अधियारा बरन बार अन्धकार उस पर छाया ५  
रहे<sup>२</sup>  
उस में बादल छाप रहें  
और जो कुछ दिन का अधेरा कर सकता है सो  
उस को डराए ॥  
फिर उस रात को घोर अंधकार पकड़े बरस के ६  
दिनों के बीच वह आनन्द न करने पाए  
और महीनों में उस की गिनती न की जाए ॥  
सुनी वह रात बाँझ होए ७

(२) मूल में उसका दाम देकर उसे अपना लें ।

- उस में गाने का शब्द न सुन पड़े ॥  
 ८ जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और  
 लिंघ्यातान को छोड़ने में निपुण हैं सो उसे  
 धिक्कारें ॥  
 ९ उस दिन की भोर के तारे प्रकाश न दें वह  
 उजियाले की बाट जोड़े पर वह उसे न मिले वह  
 भोर की पलकों को देखने न पाए ॥  
 १० क्योंकि उस ने मेरी माता की कोख बन्द न की<sup>१</sup>  
 और मुझे कष्ट देखने दिया ॥  
 ११ मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया  
 पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा ॥  
 १२ मैं छुटनों पर क्यों लिया गया  
 मैं क्षातियों को क्यों पीने पाया ॥  
 १३ ऐसा न होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता मैं सोता  
 रहता और विश्राम करता ॥  
 १४ मैं पृथिवी के उन राजाओं और मन्त्रियों के साथ  
 होता  
 जिन्होंने मुझे स्थान बनवा लिये थे,  
 १५ वा मैं उन सोना रखनेवाले हाकिमों के साथ होता  
 जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर दिया था,  
 १६ वा मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ न  
 होता  
 वा ऐसे बच्चों के समान होता जो उजियाले को  
 देखने नहीं पाते ॥  
 १७ उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुःख नहीं देते  
 और उनके मांसे विश्राम करते हैं ॥  
 १८ उस में बंधुए एक संग सुख से रहते हैं और  
 परिश्रम करानेहारे का बोल नहीं सुनते ॥  
 १९ उस में छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने  
 स्वामी से छूटा रहता है ॥  
 २० दुःखियों को उजियाला  
 और उदास मनवालों को जीवन क्यों दिया  
 जाता है ॥  
 २१ वे मृत्यु की बाट जोड़ते हैं पर वह आती नहीं  
 और गड़े हुए धन से अधिक उस की खोज  
 करते हैं<sup>२</sup> ॥  
 २२ वे कबर को पहुँच कर आनन्दित और अत्यन्त मगन  
 होते हैं ॥  
 २३ उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिस का मार्ग  
 छिपा

(१) मूल में उस ने मेरी कोख के किवाड़ बन्द न किये न मेरी  
 आँखों से कष्ट छिपाया । (२) मूल में उस के लिए खादते हैं ।

- जिस के चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध  
 दिया हो ॥  
 मुझे तो रोटी खाने की सन्ती लम्बी लम्बी साँसें १४  
 आती हैं  
 और मेरा विलाप धारा की नाई बहता रहता है<sup>३</sup> ॥  
 क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ सोई १५  
 मुझ पर आ पड़ती है  
 और जिस से मैं भय खाता हूँ सोई मुझ पर आ  
 जाता है ॥  
 मुझे न तो कल न शान्ति न विश्राम मिलता है १६  
 पर दुःख आता है ॥

(एलीपज का बचन)

### ४. तब तेमानी एलीपज ने कहा,

- यदि कोई तुझ से कुछ कहने लगे तो क्या तुझे २  
 बुरा लगेगा  
 पर बात करने से कौन रुक सके ॥  
 सुन तू ने बहुतों को शिक्षा दी ३  
 और निर्बल लोगों<sup>४</sup> को बल तो दिया ॥  
 गिरते हुआओं को तू ने अपनी बातों से संभाल ४  
 तो लिया  
 और लड़खड़ाते हुए लोगों<sup>५</sup> को तू ने बल तो  
 दिया था,  
 पर अब विपत्ति जो तुझ पर आ पड़ी सो तू ५  
 उकताता है  
 और उस के छुवाव ही से तू भर उठ है ॥  
 परमेश्वर का भय जो तू मानता है क्या इस ६  
 पर तेरा आसरा नहीं  
 और तेरी चालचलन जो खरी है क्या इस से  
 तुझे आशा नहीं ॥  
 सोच कि क्या कोई निर्दोष कभी नाश हुआ ७  
 और खरे लोग कहां बिलाय गये ॥  
 मेरे देखने में तो जो अनर्थ जोतते ८  
 और उत्पात बोते हैं सो वैसा ही लवते हैं ॥  
 वे तो ईश्वर की कृप से नाश होते ९  
 और उस की केप की सास लगते ही उन का  
 अन्त होता है ॥  
 सिंह का गरजना और भयंकर सिंह का शब्द १०  
 बन्द हो जाता है :  
 और जवान सिंहों के दाँत तोड़े जाते हैं ॥

(३) मूल में मेरे गर्जन जल की नाई उँबले जाते हैं । (४) मूल में  
 निर्बल हाथ । (५) मूल में टिकते हुए ।

- ११ शिकार न पाने से बूढ़ा सिंह मर जाता  
और सिंही के डायरू तितर बितर हो जाते हैं ॥
- १२ मेरे पास तो एक बात चुपके से पहुंची  
और उस की कुछ भनक मेरे कान में पड़ी ॥
- १३ रात के स्वप्नों की चिन्ताओं के बीच  
जब मनुष्य भारी नींद में पड़े थे,  
१४ मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकंपी लगी  
कि मेरी सब हड्डियां तक थरथरा उठीं ॥
- १५ तब एक आत्मा मेरे साम्हने से होकर चला  
इस से मेरी बेह के रोएं खड़े हो गये ॥
- १६ वह ठहर गया और उस का आकार मुझे ठीक न  
देख पड़ा  
पर मेरी आंखों के साम्हने कुछ रूप था  
पाँवले सजाटा रहा फिर शब्द सुन पड़ा कि  
१७ क्या मनुष्य ईश्वर के लेखे धर्मी ठहरे  
क्या पुरुष अपने सिरजनहार के लेखे शुद्ध ठहरे ॥
- १८ सुन वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता  
और अपने दूतों को मूर्ख ठहराता है ॥
- १९ फिर जं मिट्टी के घरों में रहते हैं  
जिन की नेब धूल में डाली गई है  
और वे पतंगे की नाईं पिस जाते हैं उन का क्या लेखा ॥
- २० वे भीर से सांभ लों टुकड़े टुकड़े किये  
जाते हैं  
वे सदा के लिये नाश होते हैं  
और कोई ध्यान नहीं देता ॥
- २१ क्या उन के डेरे की डोरी नहीं कट जाती  
वे बिना बुद्धि मर जाते हैं ॥

**५. पुकार** तो पुकार पर कौन तुम्हें उत्तर  
देगा

- पवित्रों में से नृ किय की और फिरंगा ॥  
२ मूढ़ तो खेद करते करते नाश होता  
और भोला जलते जलते मर जाता है ॥
- ३ मैं ने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा  
पर अज्ञानक मैं ने उस के वासस्थान को धिक्कारा ॥
- ४ उस के लड़कैवाले उद्धार से बूर हैं  
और जब वे कचहरी में २ पीसे जाते  
तब कोई छुड़ानेहारा नहीं रहता ॥
- ५ उस के खेत की उपज भूखे लोग खा लेते  
बरन कटीली बाड़ में से भी निकाल लेते  
और उन के धन के लिये फन्दा लगा है

- विपत्ति तो धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट ६  
भूमि से उगता है ॥  
जैसे चिगारे ऊपर ही ऊपर उड़ जाते वैसे ही ७  
मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिये उत्पन्न होता है ॥  
पर मैं तो ईश्वर को खोजता और अपना मुकद्दमा ८  
परमेश्वर पर छोड़ देता ॥  
वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिन की याह नहीं ९  
लगती  
और इतने आश्चर्यकर्म करता है जो गिने नहीं  
जाते ॥  
वही पृथिवी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर १०  
जल बरसाता है ॥  
इस रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर रखता ११  
और शोक का पहिरावा पहिने हुए लोग ऊंचे पर  
पहुंचकर बचते हैं ॥  
वह तें धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर १२  
देता है  
कि उन के हाथों से कुछ बन नहीं पता ॥  
वह बुद्धिमानों को उन की धूर्तता ही में १३  
फंसाता  
और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है ॥  
उन पर दिन की अंधेरा छा जाता है और दिन १४  
दुपहरी के रात की नाईं टटोलते फिरते हैं ॥  
पर वह दरिद्रों को उन के वचनरूपी तलवार से १५  
और बलवानों के हाथ से बचाता है ॥  
सो कंगालों को आशा होती है और कुटिल १६  
मनुष्यों का मुंह बन्द हो जाता है ॥  
सुन क्या ही धन्य वह मनुष्य जिस को ईश्वर १७  
डाँटे  
सो तू सर्वशक्तिमान की ताःना तुच्छ मत जान ॥  
क्योंकि वही घायल करता और वही गृह बांधता है १८  
वही मारता और वही अपने हाथ से चगा करता  
है ॥  
वह तुम्हें लड़ः विपत्तियों से छुड़ाएगा बरन सात से १९  
भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी ॥  
अकाल में वह तुम्हें मृत्यु से और युद्ध में तलवार २०  
की धर से बचा लेगा ॥  
तू वचनरूपी कोड़े से बचा रहेगा ४ २१

(१) वा वायु । (२) मूल में फाटक में ।

(३) मूल में तलवार ले उन के मुंह से । (४) मूल में छिपाया  
जायगा ।

- और जब उजाड़ होगा तब भी तुम्हें डरना न होगा ॥
- २२ उजाड़ और अकाल के दिनों में तू हंसमुख रहेगा
- और तुम्हें बनेले जन्तुओं से भी डर न लगेगा ॥
- २३ बरन मैदान के पत्थर भी तुम्हें से बाचा बाचे रहेंगे
- और बनेले पशु तुम्हें से मेल रन्खेंगे ॥
- २४ और तुम्हें निश्चय होगा कि मेरा डेरा कुशल से है
- और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी ॥
- २५ तुम्हें यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे
- और मेरे सन्तान पृथिवी की घास के तुल्य बहुत होंगे ॥
- २६ जैसे पूतियों का ढेर समय पर खलिहान में रक्खा जाता है
- वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कबर को पहुंचेगा ॥
- २७ इसी को सुन हम ने खोज खोजकर ऐसा ही पाया
- सो तू सुन और अपने ध्यान में रख ॥

(अध्याय का उत्तर)

## ६. फिर अध्याय ने कहा

- २ भला होता कि मेरा खेद तौला जात और मेरी सारी विपत्ति तुला में धरी जाती ॥
- ३ क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती
- इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं ॥
- ४ क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे चुभे हैं और उन का विष मेरे आत्मा में पैठ गया है? ईश्वर की भयंकर बातें मेरे विरुद्ध पांति बांधे हैं ॥
- ५ जब बनेले गदहे को घास मिलती तब क्या वह रेंकता है
- और बैल चारा पाकर क्या डकराता है ॥
- ६ जो पीका है सो क्या बिना लोन खाया जाता है
- क्या अंडे की सुफेदी में कुछ स्वाद होता है ॥
- ७ जिन वस्तुओं के छूने को मैं नकारता था वे ही मानो मेरा घिनौना आहार ठहरी हैं ॥

(१) मूल में मेरे आत्मा को पी लता है ।

- भला होता कि मुझे मुंह मांगा बर मिलता ॥
- और जिस बात की मैं आशा करता हूँ सो ईश्वर मुझे दे देता
- कि ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और ९
- हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता ॥
- मेरी शांति का यह कारण बना रहता बरन भारी १०
- पीड़ा में? भी मैं इस कारण से उछल पड़ता
- कि मैं उस पवित्र के वचनों को कभी नहीं मुकरा ॥
- मुझ में क्या बल है कि मैं आशा रक्खूं और मेरा ११
- अन्त क्या होगा कि मैं धीरज धरूं ॥
- क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है क्या मेरा शरीर १२
- पातल का है ॥
- क्या मैं निरुपाय नहीं हूँ १३
- क्या बने रहने की शक्ति मुझ से दूर नहीं हो गई ॥
- जो निराश है उस पर तो पड़ोसी को कृपा १४
- करनी चाहिये
- नहीं तो क्या जाने वह सर्वशक्तिमान का भय मानना भी छोड़ दे ॥
- मेरे पड़ोसी नाले के समान विश्वासघाती हो गये हैं १५
- बरन उन नालों के समान जिन की धार रहती ही नहीं
- और वे बरफ के कारण काले से हो जाते हैं १६
- और उन में हिम छिपा रहता है ॥
- पर जब गरमी होने लगती तब उन की धाराएं १७
- घटने लगती हैं
- और जब कड़ा घाम होता है तब वे जहां का तहां विलाय जाती हैं? ॥
- वे घूमते घूमते सुख जाती और सुनसान स्थान में १८
- बहकर नाश होती हैं ॥
- तेमा के बनजारों ने उन के लिये ताका और शबा १९
- के काफिलेवालों ने उन की आशा रक्खी ॥
- भरोसा करने के कारण उन की आशा टूटी और २०
- वहां पहुंचकर उन के मुंह सुख गये ॥
- उसी प्रकार अब तुम भी न रहे मेरी विपत्ति देखकर २१
- तुम डर गये हो ॥
- क्या मैं ने तुम से कहा था कि मुझे कुछ दो २२
- वा अपनी संपत्ति में से मेरे लिये दान दो ॥
- या मुझे सतानेहारे के हाथ से बचाओ वा उपद्रव २३
- करनेहारों के बश से छुड़ा लो ॥

(२) मूल में बिना छोड़ने की पीड़ा में । (३) मूल में उन के मार्ग को बगैरे घूमती हैं ।

- २४ मुझे शिखा दे। मैं चुप रहूंगा  
और मुझे समझाओ कि मैं किस बात में चूका हूँ ॥
- २५ सीधाई के बचनों में कितना गुण होता है पर  
तुम्हारे झंटेने से क्या सिद्ध होता है ॥
- २६ क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो  
निराश जन की बातें तो वायु सी हैं ॥
- २७ तुम बरमुझे पर चिट्ठी डालते और अपने मित्र  
को बेचकर लाभ उठाते ॥
- २८ अब कृपा करके मुझे देखो निश्चय मैं तुम्हारे  
साम्हने भूठ न बोलूंगा ॥
- २९ फिर कुटिलता कुछ न होने पाए फिर इस मुकहमे  
में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है ॥
- ३० क्या मेरे बचनों में कुछ कुटिलता है  
क्या मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता ॥

### ७. क्या मनुष्य को पृथिवी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती

- क्या उस के दिन मजूर के से नहीं होते ॥
- २ जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे वा मजूर  
अपनी मजूरी की आशा रखे,
- ३ वैसा ही मेरा भाग महीनों तक का अनर्थ है और  
मेरे लिये क्रोध से भरी रातें ठहराई गई हैं ॥
- ४ जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ  
मैं कब उठूंगा और रात कब बीतेगी  
और पह फटने लो छुटपटाते छुटपटाते उकता  
जाता हूँ ॥
- ५ मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है  
मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है
- ६ मेरे दिन करगै से अधिक फुर्ती से चलनेहारें हैं  
और निराशी से बीते जाते हैं ॥
- ७ सोच कर कि मेरा जीवन वायु ही है  
मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा ॥
- ८ जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई  
न दूंगा  
तेरी आंखें मेरी ओर होंगी पर मैं न मिलूंगा ॥
- ९ जैसे बादल छुटकर बिलाय जाता है  
वैसे ही अधोलोक में उतरनेहार। फिर बहा से  
नहीं निकल आता ॥
- १० वह अपने घर को फिर लौट न आएगा और न  
अपने स्थान में फिर मिलेगा ॥

(१) मूल में झंटेने । (२) मूल में मेरी जीभ पर । (३) मूल में मेरा  
गाल । (४) मूल में उस का स्थान उसे फिर न चीन्हेगा ।

- इसलिये मैं अपना मुंह बन्द न रखूंगा ११  
अपने मन का खेद खोलकर कहूंगा  
और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता  
रहूंगा ॥
- क्या मैं समुद्र वा मगरमच्छ हूँ १२  
कि तू मुझ पर चौकी बैठाता है ॥  
जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति १३  
मिलेगी  
और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हलका होगा,  
तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता १४  
और दीखते हुए रूपों से भयभीत कर देता है,  
यहां लों कि मेरा जी सांस का बन्द होना ही १५  
और अपना हृदयों के बने रहने से मरना ही अधिक  
चाहता है ॥
- मुझे अपने जीवन से चिन आती है मैं सदा लों १६  
जीता रहना नहीं चाहता  
मेरा जीवनकाल सांस सा है सो मुझे छोड़ दे ॥  
मनुष्य तो क्या है कि तू उसे बड़ा जानकर १७  
अपना मन उस पर लगाए,  
और भोर भोर को उस की सुधि लेकर १८  
क्षय क्षय उसे जांचता रहे ॥  
तू कब लो मेरी ओर आंख लगाये रहेगा और इतनी १९  
बेर लों भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना धूक  
लील जाऊँ ॥  
हे मनुष्यों के ताकनेहारें मैं ने पाप तो किया होगा २०  
मैं ने तेरा क्या बिगाड़ा  
तू ने क्यों मुझ को अपना निशाना ठहराया  
यहां लों कि मैं अपने ऊपर आपही बोझ हुआ हूँ ॥  
और तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता २१  
और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता  
अब तो मैं मिट्टी में सो रहूंगा  
और तू मुझे यत्न से ढूँढ़ेगा पर मेरा पता कहाँ ॥

(बिलदद का वचन)

### ८. तब शही बिलदद ने कहा

- तू कब लों ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे २  
मुंह की बातें कब लों प्रचण्ड वायु सी रहेंगी ॥  
क्या ईश्वर न्याय को टेढ़ा करता ३  
और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उलटा करता है ॥  
यदि तेरे लड़केवाली ने उस के विरुद्ध पाप ४  
किया ही

- तो उस ने उन को उन के अपराध का फल  
भुगताया है ? ॥
- ५ पर यदि तू आप ईश्वर को यत्न से ढूँढ़े  
और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करे,  
६ और यदि तू पवित्र और सीध है  
तो निश्चय वह तेरे लिये जायेगा  
और तुम्हें निर्दोष का निवास फिर ज्यों का त्यों  
कर देगा ॥
- ७ बगन चाहे तेरा भाग पहिले छोटा ही रह ही  
पर अन्त में तेरी बहुत बढ़ती होगी ॥
- ८ अगली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ  
और जो कुछ उन के पुरखाओं ने निकाला है  
उस में ध्यान दे ॥
- ९ क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते  
और पृथिवी पर हमारे दिन छाया की नाईं  
बोतते जाते हैं ॥
- १० क्या वे लोग तुम्हें से शिक्षा की बातें न कहेंगे  
क्या वे अपने मन से बातें न निकालेंगे ॥
- ११ क्या सरकरड़ा कीच बिना बढ़ता है  
क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है ॥
- १२ चाहे वह हरी हो और काटी भी न गई हो  
तौभी वह और सब भाँति की घास से पहिले ही  
सूख जाती है ॥
- १३ ईश्वर के सब बिमारनेहारों की गति ऐसी ही  
होती है  
और भक्तिहीन की आशा टट जाती है ॥
- १४ उस की आशा का मूल कट जाता  
और जिस का वह भरोसा करता है सो मकड़ी का  
जाला ठहरता है ॥
- १५ चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए पर वह न  
ठहरेगा  
वह उसे धामे तो धामे पर वह स्थिर न रहेगा ॥
- १६ वह घाम पाकर हरा भरा होता  
और उस की डालियाँ बारी में चारों ओर फैलती हैं ॥
- १७ उम की जड़ पंक्तों के ढेर में लिपटी हुई रहती है  
और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है ॥
- १८ पर जब वह अपने स्थान पर से नाश किया जाए  
तब वह स्थान उस से मुकरेगा कि मैं ने उसे कभी  
नहीं देखा ॥
- १९ सुन उस की आनन्द भरी चाल यही है  
कि उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे ॥

(१) मूल में उन के अपराध के हाथ में भेजा है ।

- सुन ईश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर १०  
छोड़ देता  
और न बुराई करनेहारों को संभालता २ है ॥  
वह तो तुम्हें हंसमुख करेगा २१  
और तुम्हें जयजयकार कराएगा ॥  
तेरे वैरी लज्जा का वस्त्र पहिनेंगे २२  
और दुष्टों का डेरा कहीं रहने न पाएगा ॥  
(अय्युष बिलदद को उत्तर देता)

## ६. तब अय्युष ने कहा

- मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी २  
ही है  
पर मनुष्य ईश्वर के लेखे क्योंकर धर्मी ठहरे ॥  
चाहे वह उस से मुकद्दमा लड़ने को प्रसन्न भाँ होए ३  
तौभी मनुष्य हजार बातों में से एक का भी उत्तर  
न दे सकेगा ॥
- वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है ४  
उस के विरोध में हठ करके कौन कभी प्रबल  
हुआ ॥  
वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता ५  
वह कोप में आक- उन्हें उलट भी देता है ॥  
वह पृथिवी को कंपाकर उस के स्थान से अलग ६  
करता है  
और उस के खंभे डोल उठते हैं ॥  
उस की आशा बिना सूर्य उदय नहीं होता ७  
और वह तारों पर छात्र लगाता है ॥  
वह आकाशमण्डल को अकेला ही फैलाता ८  
और समुद्र की ऊँची ऊँची लहरों पर चलता है ॥  
वह सर्पि मृगशिरा और कचपचया ९  
और दक्खिन के नक्षत्रों का बनानेहाग है ॥  
वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिन की याह नहीं १०  
लगाती  
और हतने आश्चर्यकर्म करता है जो गिने नहीं  
जाते ॥  
सुनो वह मेरे साम्हने से होकर तो चलता है पर ११  
मुझ को नहीं देख पड़ता  
और आगे को बढ़ जाता है पर मुझे सूझ नहीं  
पड़ता ॥  
सुनो जब वह छीनने लगे तब उस को कौन रेकेगा १२  
कौन उस से कह सकता कि तू यह न्या करता है ॥

(१) मूल में का हाथ धाम्यता है । (३) मूल में तेरे होंठों से ।

(४) मन में कोठरियों ।

- १३ ईश्वर अपना कोप ठंडा नहीं करता  
अभिमानों<sup>१</sup> के सहायकों को उस के पांव तले  
भुंकना पड़ता है ॥
- १४ फिर मैं क्या हूँ जो उसे उत्तर दूँ  
और बातें छांट छांटकर उस से विवाद करूँ ॥
- १५ चाहे मैं निर्दोष होता भी पर उस को उत्तर न  
दे सकता  
मैं अपने मुद्दों से गिड़गिड़ाकर बिनती करता ॥
- १६ चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता  
तौमी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह  
मेरी बात सुनता है ॥
- १७ वह तो आधी चलाकर मुझे तोड़ डालता  
और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है ॥
- १८ वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता  
और मुझे कड़वाहट से भरता है ॥
- १९ जो सामर्थ्य की चर्चा होए तो देखो वह  
बलवान है  
और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा मुझ से  
कौन मुकद्दमा लड़ेगा<sup>२</sup> ॥
- २० चाहे मैं निर्दोष होऊँ भी पर अपने ही मुँह से  
दोषी ठहरूँगा  
खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा ॥
- २१ मैं खरा तो हूँ पर अपना भेद नहीं जानता  
अपने जीवन से मुझे धिन आती है ॥
- २२ बात तो एक ही है इस से मैं यह कहता हूँ  
कि ईश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश  
करता है ।
- २३ जब लोग विपत्ति<sup>३</sup> से अचानक मरने लगते  
तब वह निर्दोष लोगों के गल जाने पर हंसता है ॥
- २४ देश दुष्टों के हाथ में दिया हुआ है  
वह उस के न्यायियों की आंखों को मून्द देता है<sup>४</sup>  
इस का करनेहारा वही न ही तो कौन है ॥
- २५ मेरे दिन हरकारे से अधिक वेग चले जाते हैं  
वे भागे जाते और उन में कल्याण कुछ दिखाई  
नहीं देता ॥
- २६ वे नरकट की नावों की नाई चले जाते हैं  
या अंधेर पर भपटते हुए उकाब की नाई ॥
- २७ जो मैं कहूँ कि विलाप करना भूल जाऊँगा

- और उदासी<sup>५</sup> छोड़ कर अपना मन हरा कर लूँगा,  
तो मैं अपने सारे दुखों से डरता हूँ २८  
मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा ॥  
मैं तो दोषी ठहरूँगा २९  
फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूँ ॥  
चाहे मैं हिम के जल में स्नान करूँ,  
और अपने हाथ खार से निर्मल करूँ,  
तौमी तू मुझे गढ़हे में डाल देगा ३०  
और मेरे बख भी मुझ से घिनाएंगे ॥  
क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उस से ३१  
वादविवाद कर सकूँ  
और हम दोनों एक दूसरे से मुकद्दमा लड़ सकें ॥  
हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है ३२  
जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे ॥  
वह अपना सोंटा मुझ पर से दूर करे ३३  
और न भय दिखाकर मुझे घबरा दे  
तब मैं उस से निडर होकर कुछ कह सकूँगा ३४  
क्योंकि मैं अपने लेखे ऐसा नहीं हूँ ॥

### १०. मेरा जी जीते रहने से उकताता है

- सो मैं बिना रुके कुड़कुड़ाऊँगा<sup>६</sup>  
और अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूँगा ॥  
मैं ईश्वर से कहूँगा मुझे दोषी न ठहरा २  
मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझ से मुकद्दमा  
लड़ता है ॥  
क्या तुझे अंधेर करना ३  
और दुष्टों की युक्ति का सुफल करके<sup>७</sup>  
अपने हाथों के बनाये हुए<sup>८</sup> को निकम्मा जानना  
भला लगता है ॥  
क्या तेरी देहधारियों की सी आंखें हैं ४  
और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है ॥  
क्या तेरे दिन मनुष्य के से ५  
वा तेरे बरस पुरुष के से हैं,  
कि तू मेरा अधर्म दूँडता ६  
और मेरा पाप पूछता है ।  
तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ ७  
और तेरे हाथ से कोई छुड़ानेहारा नहा ॥  
तू ने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा और जोड़कर ८  
बनाया है

(१) मूल में रहब । (२) मूल में मेरे लिये कौन समय ठहराएगा ।  
(३) मूल में कौने । (४) मूल में के मुँह दाँपता है ।

(५) मूल में मुँह । (६) मूल में अपनी कुड़कुड़ाहट अपने ऊपर  
झोड़गा । (७) मूल में युक्ति पर चमक के । (८) मूल में हाथों  
के परिश्रम ।



- तौभी मुझे नाश किये डालता है ॥  
 ९ स्मरण कर कि तू ने मुझ को मिट्टी की नाई बनाया  
 क्या तू मुझे फिर मिट्टी में मिलाएगा ॥  
 १० क्या तू ने मुझे दूध की नाई उण्डेलकर और दही  
 के समान जमाकर नहीं बनाया ॥  
 ११ फिर तू ने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया  
 और हड्डियाँ और नसें गंधकर मुझे बनाया है ॥  
 १२ तू ने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा  
 की है  
 और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है ॥  
 १३ तौभी तू ने ऐसी बातों का अपने मन में छिपा  
 रखा  
 मैं तो जान गया कि तू ने ऐसा ही करना ठाना  
 था ॥  
 १४ जो मैं पाप करूँ तो तू उस का लेखा लेगा  
 और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न  
 ठहराएगा ॥  
 १५ जो मैं दुष्ट होऊँ तो हाथ मुझ पर  
 और जो मैं धर्मी होऊँ तौभी मैं सिर न उठाऊँगा  
 क्योंकि मैं अपमान से लुक गया  
 और अपने दुःख पर ध्यान रखता हूँ ॥  
 १६ और चाहे सिर उठाऊँ तौभी तू सिंह की नाई  
 मुझे अहेर करता  
 और फिरके मेरे विरुद्ध आश्चर्यकर्म करता है ॥  
 १७ तू मेरे साम्हने अपने नये नये साक्षी ले आता  
 और मुझ पर अपनी रिस बढ़ाता है  
 और मुझ पर सेना पर सेना चढ़ाई करती है ॥  
 १८ तू ने मुझे गर्भ से क्यों निकाला  
 नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने  
 न पाता ॥  
 १९ मेरा होना न होने के समान होता  
 और पेट ही से कबर का पहुँचाया जाता ।  
 २० क्या मेरे दिन थोड़े नहीं । तो मुझे छोड़कर  
 मेरी ओर से मुँह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा हरा  
 हो जाए,  
 २१ उस से पहिले कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ से न लौटूँगा  
 अर्थात् अंधियारे और घोर अंधकार के देश में,  
 २२ जो अंधकार ही अंधकार  
 और घोर अंधकार का देश है जिस में सब कुछ  
 गड़बड़ है  
 और उस में का प्रकाश अंधकार के समान  
 ही है ॥

(सोपर का वचन)

## ११. तब नामाती सोपर ने कहा

- बहुत सी बातें जो कही गईं २  
 हैं क्या उन का उत्तर देना न चाहिये  
 क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए ॥  
 क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहें ३  
 और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे  
 सज्जित न करे ॥  
 तू तो यह कहता है कि मेरा सिद्धान्त शुद्ध है ४  
 और मैं ईश्वर के लेखे पवित्र हूँ ॥  
 पर भला होता कि ईश्वर तनिक बातें करे ५  
 और तेरे विरुद्ध मुँह खोले,  
 और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रगट करे ६  
 कि उन का मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर<sup>२</sup> है  
 जान ले कि ईश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ  
 बिसराता है ॥  
 क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकता ७  
 और सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच  
 सकता ॥  
 आकाश सा ऊँचा तू क्या कर सकता ८  
 अधोलोक से गहिरा तू कहां समझ सकता ॥  
 उस की माप पृथिवी से भी लंबा ९  
 और समुद्र से चौड़ी है ॥  
 जब ईश्वर पास जाकर बन्द करे १०  
 और सभा में बुलाए तो कौन उस को रोक सकता ॥  
 वह तो पाखण्डी मनुष्यों का भेद जानता है ११  
 और अनर्थ काम को बिना सोच विचार किये भी  
 जान लेता है ॥  
 पर मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है १२  
 क्योंकि मनुष्य जन्म ही से बनैले गदहे के बच्चे के  
 समान होता है ॥  
 यदि तू अपना मन सिद्ध करे १३  
 और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए,  
 और जो कोई अनर्थ काम तुझ से होता हो उसे १४  
 दूर करे  
 और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे,  
 तो तू निश्चय अपना मुँह निष्कलंक दिखा<sup>३</sup> सकेगा १५  
 और तू स्थिर होकर न डरेगा ॥  
 तब तू अपना दुःख बिसराएगा वा उस का स्मरण १६  
 भरे हुए जल का सा होगा ॥

(१) मल में तेरे । (२) मल में दुगना । (३) मल में बिना कलंक उठा ।

- १७ और तेरा जीवनकाल दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधेरा भी होए तौभी वह मोर सा हो जाएगा ॥
- १८ और तुम्हे आसरा जो होएगा इस कारण तू निडर रहेगा और अपने चारों ओर देख देखकर तू निडर से। सकेगा ॥
- १९ और जब तू लेटेगा तब कोई तुम्हे न डराएगा और बहुतेरे तुम्हे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे ॥
- २० पर दुष्ट लोगों को आँखें रह जाएंगी और उन्हें शरण का कोई स्थान न रहेगा और उन की आशा प्राण निकलना ही होगी ॥ (अभ्युब सोपर को उत्तर देता है)

## १२. तब अभ्युब ने कहा निःसन्देह तुम ही हो १

- २ और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी ॥
- ३ पर तुम्हारी नाई मेरे भी बुद्धि है मैं तुम लोगों से कुछ बचकर नहीं हूँ कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो ॥
- ४ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था पर अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंस्टे हैं जो धर्मी और खरा मनुष्य है उस की हंसी हो रही है ॥
- ५ दुःखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ ठहरते हैं और जिन के पांव फिसला चाहते हैं उन का अपमान अवश्य हो होता है ॥
- ६ लुटेरों के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं और जं ईश्वर को रिस दिलाते हैं सो बहुत ही निडर रहते हैं और उन के हाथ में ईश्वर बहुत देता है ॥
- ७ पशुओं से तो पूछ और वे तुम्हे दिखाएंगे और आकाश के पक्षियों से और वे तुम्हे बता देंगे ॥
- ८ पृथिवी पर ध्यान दे तब उस से तुम्हे शिक्षा मिलेगी और समुद्र की मछलियां भी तुम्ह से बर्णन करेंगी ॥

- इन सभी के द्वारा कौन नहीं जानता १  
कि यद्वाही ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है ॥  
उस के हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और १०  
एक एक देहधारी मनुष्य का आत्मा भी रहता है ॥  
जैसे जीम<sup>२</sup> से भोजन चीखा जाता है ११  
क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते ॥  
बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती तो है १२  
और दिनी लोगों में समझ होती तो है ॥  
ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाये जाते हैं १३  
युक्ति और समझ उसी के हैं ॥  
देखो जिस को वह ढा दे सो फिर बनाया नहीं जाता १४  
जिस मनुष्य को वह बन्द करे सो फिर खोला नहीं जाता ।  
देखो जब वह वर्षा को रोक रखता तो जल सूख १५  
जाता है  
फिर जब वह जल छोड़ देता तब पृथिवी उलट जाती है ॥  
उस में सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है १६  
भूलनेहारे और हलानेहारे दोनों उसी के हैं ॥  
वह मंत्रियों को लूटकर बन्धुआई में ले जाता १७  
और न्यायियों की मूर्ख बना देता है ॥  
वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता १८  
और उन की कमर पर बन्धन बन्धवाता है ॥  
वह याजकों को लूटकर बन्धुआई में ले जाता और १९  
सामर्थियों को उलट देता है ॥  
वह विश्वासयोग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और २०  
पुरनियों से विवेक की शक्ति<sup>३</sup> हर लेता है ॥  
वह हाकिमों को अपने अपमान से लादता २१  
और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है ४ ॥  
वह अंधियारे से गहरी बातें प्रगट करता २२  
और घोर अन्धकार में भी प्रकाश कर देता है ॥  
वह जातियों को बढ़ाता और उन को नाश करता २३  
वह उन को फैलाता और बन्धुआई में ले जाता है ॥  
वह पृथिवी के मुख्य लोगों की बुद्धि हरता २४  
और उन को निर्जल स्थानों में जहां रास्ता नहीं है भटकाता है ॥

(१) मूल में देरा के लोग हो ।

(२) मूल में तालू ।

(३) मूल में हाँठ । (४) मूल में फँटा ढीला करता है ।

१५ वे दिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं और वह उन्हें मतवाली की नाईं बगमगाते चलाता है ॥

**१३. सुनो** मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका

और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ ॥

२ जो कुछ तुम जानते हो सो मैं भी जानत हूँ मैं तुम लोगों से कुछ घटकर नहीं हूँ ॥

३ मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूँगा और मेरी अभिलाषा ईश्वर से वादविवाद करने की है ॥

४ पर तुम लोग झूठी बात के गढ़नेहारे हो तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो ॥

५ भला होता कि तुम बिलकुल चुप रहते और इस से तुम बुद्धिमान ठहरते ॥

६ मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ ॥

७ क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहेगें और उस के पक्ष में कपट से बोलोगें ॥

८ क्या तुम उस का पक्षपात करोगें और ईश्वर के लिये एकहमा चलाओगें ॥

९ क्या यह भला होगा कि वह तुम को जांचे क्या जैसा कोई मनुष्य को ठगे वैसा ही तुम उस को भी ठगोगें ॥

१० जो तुम छिप कर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमके डाटेगा ॥

११ क्या तुम उस के माहात्म्य से भय न खाओगे क्या उस का डर तुम्हारे मन में न समाएगा ॥

१२ तुम्हारे स्मरणयोग्य नीतिवचन राख के समान हूँ

तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ढहरे हैं ॥

१३ मुझ से बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊँ

फिर मुझ पर जो चाहे सो आ पड़े ॥

१४ मैं क्यों अपना मांस अपने दान्तों से चबाऊँ और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूँ ॥

१५ वह मुझे घात करेगा मुझे कुछ आशा नहीं तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूँगा ॥

१६ और यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उस के साम्हने नहीं जा सकते ॥

चिन्ना लगा कर मेरी बात सुनो १७

और मेरी बिनती तुम्हारे कान में पड़े ॥

सुनो मैं ने अपने मुकद्दमे की पूरी तैयारी की है १८

मैं ने निश्चय किया कि मैं निर्दोष ठहरूँगा ॥

कौन है जो मुझ से एकहमा लड़ सकेगा १९

ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूँगा ॥

दो ही काम मुझ से न कर २०

तो मैं तुम से छिर न जाऊँगा ॥

अग्नी ताड़ना मुझ से दूर कर २१

और अपने भय से मुझे न घबरा ॥

तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूँगा २२

नहीं तो मैं प्रश्न करूँ और तू मुझे उत्तर दे ॥

मुझ से कितने अधर्म के काम और पाप हुए २३

मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे ॥

तू किस कारण अपना मुँह फेर लेता २४

और मुझे अपना शत्रु गिनता है ॥

क्या तू उड़ते हुए पक्षी को भी कंपाएगा २५

और सुखे भैंसे को खदेड़ेगा ॥

तू मेरे लिये कठिन दुःखों की आज्ञा देता २६

और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगतता देता है २७

और मेरे पांवों के काठ में डोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता

और मेरे पांवों का चारों ओर सीमा बांध लेता है ॥

और मैं सड़ी गली बस्तु २८

और कीड़ा खाये कपड़े के समान हूँ ॥

**१४. मनुष्य** जो खो से उत्पन्न होता है मो

थोड़े दिनों का और संताप से

भरा रहता है ॥

वह फूल की नाईं खिलता फिर तोड़ा जाता है २

वह झूया की रंगि पर ढल जाता और कहीं नहीं ठहरता ॥

फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता ३

क्या तू मुझे अपने साथ कचहरों में बसीटता है

अशुद्ध बस्तु से शुद्ध बस्तु को कौन निकाल सकता है । कोई नहीं । ४

(१) मूल में छिपाता । (२) मूल में कड़वी बातों । (३) मूल में अधर्म के कर्मों का भागी मुझे करता है । (४) मूल मया ।

- ५ मनुष्य के दिन ठहराए गये हैं  
और उस के महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है  
और तू ने उस के लिये ऐसा सिवाना बांधा है  
जिसे वह नहीं लाय सकता
- ६ इस कारण उस से अपना मुंह फेर ले कि वह  
आराम करे  
जब लों कि वह मजूर की नाई अपना दिन पूरा  
न कर ले ॥
- ७ वृक्ष की तो आशा रहती है  
कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर  
पनपेगा  
और उस से कन्खाएँ निकलती ही रहेंगी ॥
- ८ चाहे उस की जड़ भूमि में पुगनी भी हो जाए ।  
और उस का ठंड मिट्टी में सूख भी जाए,  
तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा  
और पौधे की नाई उस से शाखाएँ फूटेंगी ॥
- ९ पर पुरुष मर जाता और पड़ा रहता है  
जब उस का प्राण छूट गया तब वह कहां रहा ॥  
जैसे नील नदी का जल घट जाता  
और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख  
जाता है,  
वैसे ही मनुष्य लोट जाता और फिर नहीं उठता  
जब लों आकाश बना रहेगा तब लों लोग न  
जागेंगे  
और न उन की नींद टूटेगी ॥
- १३ भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता  
और जब लों तेरा कोप ठंडा न होता तब लों  
मुझे छिपाये रखता  
और मेरे लिये समय ठहरा कर फिर मेरी सुधि  
लेता ॥
- १४ यदि पुरुष मर जाए तो क्या वह फिर जिएगा  
जब लों मेरा छुटकारा न होता ?  
तब लों मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा  
लगाये रहता ॥
- १५ तू मुझे बुलाता और मैं बोलता  
तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा  
होती ॥
- १६ पर अब तू मेरे पग पग को गिनता है

- क्या तू मेरे पाप को नहीं देखता रहता ॥  
मेरे अपराध को धैर्य में रखकर छाप लगाई गई है १७  
और तू मेरे अधर्म को अधिक बढ़ात है ॥  
पहाड़ भी गिरते गिरते नाश हो जाता है १८  
और चटान अपने स्थान से हट जाती है,  
और पत्थर जल से घिस जाते हैं १९  
और भूमि की धूलि उम की बाढ़ से बहाई जाती है  
उसी प्रकार तू मनुष्य का आसरा मिटा देता है ॥  
तू सदा उस पर प्रबल होता और बढ़ जाता २०  
रहता है  
तू उस का चिंश बिगाड़कर उसे निकाल देता है ॥  
उस के पुत्रों को बढ़ाई होती और यह उसे नहीं २१  
सूझता  
और उन की घटी होती पर वह उन का हाल  
नहीं जानता ॥  
केवल अपने ही कारण उस की देह को दुःख २२  
होता है  
और अपने ही कारण उस का जीव शक्ति  
रहता है ॥

(पत्नीपज का वचन)

१५. तब तेमानी पत्नीपज ने कहा  
क्या बुद्धिमान को उचित है कि  
अज्ञानता के साथ उत्तर दे २  
वा अपने अन्तःकरण को पूरबी पथन से भरे ।  
क्या वह निष्फल वचनों से ३  
वा व्यर्थ बातों से वादविवाद करे ॥  
बरन तू भय मानना छोड़ देता ४  
और ईश्वर का ध्यान करना औरों से छुड़ाता है ॥  
तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रगट करता ५  
और वृत्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है ।  
मैं तो नहीं पर तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है ६  
और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षात् देते हैं ॥  
क्या पहिला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ ७  
क्या तेरा उत्पत्ति पहाड़े से भां पहिले हुई ॥  
क्या तू ईश्वर की सभा में बैठा सुनता था ८  
क्या सारा बुद्धि अपने लिये तू ही रखता है ॥  
तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते ९  
तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं ॥  
हम लोगों में तो पकं बालवाले और अति पुनिये १०  
मनुष्य हैं

(१) मूल में जल । (२) मूल में जैसे समुद्र ।

(३) मूल में मेरा बदल न आता ।

(४) मूल में वायु के बान । (५) मूल में धूलों की ओम चुनता है ।

- जो तेरे पिता से भी बहुत दिनों हैं ॥  
 ११ ईश्वर की शांति देनेहारी बातें  
 और जो वचन तेरे लिये कोमल हैं क्या ये तेरे  
 लेखे तुच्छ हैं ॥
- १२ तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है  
 और तू आंसू से क्यों सैन करता है ॥
- १३ तू तो अरना जी ईश्वर के विरुद्ध फेरता  
 और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकलने देता है ॥
- १४ मनुष्य क्या है कि निष्कलङ्क हो  
 और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ सो क्या है कि  
 निर्दोष हो सके ॥
- १५ सुन वह अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता  
 और स्वर्ग<sup>१</sup> भी उस की दृष्टि में निर्मल नहीं है ॥
- १६ फिर मनुष्य अधिक चिन्तना और मलीन है जो  
 कुटिलता को पानी की नाई पीता है ॥
- १७ मैं तुझे समझा दूंगा सो मेरी सुन ले  
 जो मैं ने देखा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ ॥
- १८ (वे ही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरुखाओं से  
 सुनकर  
 बिना छिपाये बताया है ॥
- १९ केवल उन्हीं को देश दिया गया था  
 और उन के बीच कोई विदेशी आता जाता न था) ॥
- २० दुष्ट जन जीघन भर पीड़ा से तड़पता है  
 और बलात्कारी के बरसों की गिनती ठहराई हुई है ॥
- २१ उस के कान में डरावना शब्द बना रहता है  
 कुशल के समय भी नाश करनेहारा उस पर आ  
 पड़ता है ॥
- २२ उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा  
 नहीं होती  
 और तलवार उस की घाल में रहती है ॥
- २३ राटी राटी ऐसा चिन्ताता हुआ<sup>२</sup> वह मारा मारा  
 फिरता है  
 उसे निश्चय रहता है कि अधकार का दिन मेरे  
 पास ही है ॥
- २४ मंक्रट और सकेती से उस को डर लगता रहता है  
 ऐसे राजा की नाई जो युद्ध के लिये तैयार हो वे  
 उस पर प्रबल होते हैं ॥
- २५ उस ने तो ईश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है  
 और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल ठोकता है,

- और सिर उठाकर<sup>३</sup> और अपनी मोटी मोटी ढालें<sup>४</sup> २६  
 दिखाता हुआ<sup>५</sup>  
 वह उस पर धावा करता है ॥  
 फिर उस के मुंह पर चिकनाई झा गई है २७  
 और उस की कमर में चर्बी जमी है ॥  
 और वह उजाड़े हुए नगरों में २८  
 और जो घर रहने योग्य नहीं  
 और दीह होने को छोड़े गये हैं उन में बस गया है ॥  
 वह धनी न रहेगा और न उस की संपत्ति बनी रहेगी २९  
 और ऐसे लोगों के खेत की उपज भूमि की ओर  
 न झुकने पाएगी ॥  
 वह अंधियारे से न छूटेगा ३०  
 और उस की कनखाएँ लौ से झुलस जाएंगी  
 और ईश्वर के मुंह की फंफू से वह उड़ जाएगा ॥  
 वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों का भरोसा ३१  
 न करे  
 क्योंकि उस का बदला धोखा ही होगा ॥  
 वह उस के नियत दिन से पहिले पूरा पूरा दिया ३२  
 जाएगा  
 उस की डालियाँ हरी न रहेंगी ॥  
 दाख की नाई उस के कच्चे फल झड़ जाएंगे ३३  
 और उस के फूल जलपाई के वृक्ष के से गिरेंगे ॥  
 क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बन न पड़ेगा<sup>६</sup> ३४  
 और जो घूस लेते हैं उन के तंबू आग से जल जाएंगे ॥  
 उन के उपद्रव का पेट रहता और अनर्थ उत्पन्न ३५  
 होता है  
 और वे अपने अन्तःकरण में छल की बातें  
 गढ़ते हैं ॥

(अप्युव का वचन)

१६. तब अप्युव ने कहा  
 ऐसी ऐसी बातें मैं बहुत सी २

सुन चुका हूँ

तुम सब के सब उक्तानेहारे शान्तिदाता हो ॥

क्या व्यर्थ बातों का अन्त कभी होगा ३

नहीं जो तुझे उतर देने के लिये क्या उसकाता है ॥

मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता हूँ ४

जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती

तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता

और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता ॥

(१) वा आकाश । (२) मूल में राटी कहा ।

(३) मूल में गर्दन है । (४) मूल में अपनी ढालों की मोटी  
 पीठों से । (५) मूल में परिवार बाँक होगा ।

- ५ धर मैं बच्चनों से तुम को हियाव बन्धाता और  
बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता ॥
- ६ चाहे मैं बोलूं पर मेरा शोक न घटेगा चाहे मैं  
चुप रहूँ तौभी मेरा दुःख कुछ कम न  
होगा ॥
- ७ पर अब उस ने मुझे उकता दिया  
तू ने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है ॥
- ८ और तू ने जो मेरे शरीर को सुखा डाला है सो  
मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है  
और मेरा दुःखलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे  
साम्हने सार्ना देता है ॥
- ९ उस ने कोप में आकर मुझ को फाड़ा और मेरे  
पीछे पड़ा है  
वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता  
और मेरा बैरी मुझ को आंखें दिखाता है ॥
- १० अब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं  
और मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर थपेड़ा  
मारते  
और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं ॥
- ११ ईश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया  
और दुष्ट लोगों के हाथ में फँक दिया है ॥
- १२ मैं सुख से रहता था और उस ने मुझे चूर चूर  
कर डाला  
उस ने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े  
कर दिया  
फिर उस ने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा  
किया है ॥
- १३ उस के तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं  
वह निर्दय होकर मेरे गुदाँ को बेधता है  
और मेरा पिस्त भूमि पर बहाता है ॥
- १४ वह शूर की नाईं मुझ पर धाया करके मुझे  
चोट पर चोट पहुँचाकर बायल करता है ॥
- १५ मैं ने टाट सी सीकर अपना खाल पर ओढ़ा  
और अपना सींग मिट्टी में मैला कर दिया है ॥
- १६ रोते रोते मेरा मुंह सूज गया  
और मेरी आंखों पर धोर अन्धकार छा गया है ॥
- १७ तौभी मुझ से कोई उपद्रव नहीं हुआ  
और मेरी प्रार्थना पवित्र है ॥
- १८ हे पृथिवी तू मेरे लोह को न ढांपना और मेरी  
देहाई कहीं न रुके ॥

- अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है १९  
और मेरा गवाही देनेहारा ऊगर है ॥  
मेरे मित्र मेरे ठट्ठा करनेहारे हो गये हैं २०  
पर मैं ईश्वर के साम्हने आंख बहाता हूँ,  
कि कोई ईश्वर के विरुद्ध सज्जन का और आदमी २१  
का मुकद्दमा उस के पड़ोसी के विरुद्ध लड़े ॥  
क्योंकि थोड़े ही बरसों के बीतने पर मैं उस मार्ग २२  
से चला जाऊंगा जिस से मैं नहीं लौटूंगा ॥

### १७. मेरा जीव नाश हुआ है मेरे दिन हो चुके हैं

- मेरे लिये कबर तैयार है ॥  
निश्चय जो मेरे संग हैं सो ठट्ठा करनेहारे हैं २  
जो मुझे लगातार दिखाई देता है सो उन का  
भलाड़ा रगड़ा है ॥  
बन्धक धर दे अपने और मेरे बीच मैं तू ही जामिन हो ३  
कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे ॥  
तू ने इन का मन समझने से रोका है ४  
इस कारण तू इन को प्रबल न करेगा ॥  
जो अपने मित्रों को चुगली खाकर लुटा देता ५  
उस के लड़को की आंखें रह जाएंगी ॥  
उस ने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं ६  
और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं,  
और खेद के मारे मेरी आंखों में धंधलापन छा गया ७  
और मेरे सब अंग छाया की नाईं हो गये हैं ॥  
इसे देखकर सीधे लोग चकित होते ८  
और जो निर्दोष हैं सो भक्तिहीन के विरुद्ध  
उभरते हैं ॥  
धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे ९  
और शुद्ध काम करनेहारे सामर्थ्य पर सामर्थ्य  
पाते जाएंगे ॥  
तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ १०  
पर मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान न  
मिलेगा ॥  
मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी मनसाएं मिट गईं ११  
और जो मेरे मन में था सो नाश हुआ है ॥  
धे रात को दिन ठहराते १२  
वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजियाला है ॥  
यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम १३  
होगा

(१) मूल में होंठों । (२) मूल में मुझ से क्या किया जायगा ।

(३) मूल में बुझ गये । (४) मूल में शुद्ध हाथवाला ।

यदि मैं अधियारे में अपना बिछौना बिछा चुका  
होऊँ,  
१४ यदि मैं बिनाश से कह चुका होऊँ कि तू मेरा  
पिता है  
और कीड़े से कि तू मेरी मा और मेरी बहिन है,  
१५ तो मेरी क्या आशा रही  
और मेरी आशा किस के देखने में आएगी ॥  
१६ वह तो अधोलोक में उतर जाएगा और उस  
समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा ।

(शूद्रो बिल्दद का वचन)

१८. तब शूद्रो बिल्दद ने कहा  
२ तुम कब लों फंदे लगा लगाकर  
वचन पकड़ते रहोगे  
चित्त लगाओ तब हम बोलेंगे ॥  
३ हम लोग तुम्हारे लेखे कयों पशु सरीखे  
और अशुद्ध ठहरे हैं ॥  
४ हे अपने को कोप के मारे चीयनेहारे  
क्या तेरे निमित्त पृथिवी उजड़ जाएगी  
और चटान अपने स्थान से दृष्ट जाएगी ॥  
५ तौभी दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा  
और दुष्ट की आग की लौ न चमकेगी ॥  
६ उस के डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा  
और उस के ऊपर का दिया बुझ जाएगा ॥  
७ उस के बड़े बड़े फाल छोटे हो जाएंगे  
और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा ॥  
८ वह अपने ही पांव जाल में फंसाएगा  
वह वागुर पर चलता है ॥  
९ उस की पड़ी फंदे में फंस जाएगी  
और वह वागुर में पकड़ा जाएगा ॥  
१० फंदे की रस्तियां उस के लिये भूमि में  
और वागुर डगर में छिपा रहता है ॥  
११ चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराती  
और उस के पीछे पड़कर उस को भगाती हैं ॥  
१२ उस का बल दुःख से घट जाएगा  
और विपत्ति उस के पास ही तैयार रहेगी ॥  
१३ उस के अंग खाए जाएंगे  
काल का पहिलौठा उस के अंगों को खा लेगा ॥

(१) मूल में अधोलोक के बंधों में ।

(२) मूल में उस के चमके के बंधों को ।

अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है उस में १४  
से वह छीन लिया जाएगा  
और वह भयंकर राजा के पास पहुँचाया जाएगा ॥  
जो उस के यहाँ का नहीं है सो उस के डेरे में १५  
बास करेगा  
और उस के घर पर गंधक छितराई जाएगी ॥  
उस की जड़ तो सूख जाएगी १६  
और डालियां कट जाएंगी ॥  
पृथिवी पर से उस का स्मरण मिट जाएगा १७  
और द्वाट<sup>३</sup> में उस का नाम कभी न सुन पड़ेगा ॥  
वह उजियाले से अधियारे में टकेल दिया जाएगा १८  
और जगत में से भी भगाया जाएगा ॥  
उस के कुटुंबियों में उस के कोई पुत्र पौत्र न रहेगा १९  
और जहाँ वह रहता था वहाँ कोई बचा हुआ न  
रह जाएगा ॥  
उस का दिन देखकर पूरबी लोग चकित होंगे २०  
और पश्चिम के निवासियों के रोएं खड़े हो जाएंगे ॥  
निःसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं २१  
और जिस को ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता उस का  
स्थान ऐसा ही हो जाता है ॥

(अध्याय का वचन)

१९. तब अध्याय ने कहा  
तुम कब लों मेरे जीव को २  
दुःख देते रहोगे  
और बातों से मुझे चूर चूर करोगे ॥  
इन दसों बार तुम लोग मेरी निन्दा करते ३  
और निर्लज्ज होकर मुझे भभराते हो ॥  
और चाहे मुझ से मूल हुई मी हो ४  
तौभी वह मूल मेरे ही सिर रहेगी ॥  
जो तुम सचमुच मेरे विरुद्ध बड़ाई मारोगे ५  
और प्रमाण देकर मेरी निन्दा करोगे,  
तो जानो कि ईश्वर ने मेरा न्याय बिगाड़ा ६  
और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है ॥  
सुनो मैं उपद्रव उपद्रव यों चिह्नाता रहता हूँ पर ७  
कोई नहीं सुनता  
मैं दोहाई देता रहता हूँ पर कोई न्याय नहीं करता ॥  
उस ने मेरे मार्ग को ऐसा रूखा है कि मैं आगे ८  
चल नहीं सकता  
और मेरी डगरें अंधेरी कर दी हैं ॥  
मेरा विभव उस ने हर लिया ९

(३) अथवा जंगल ।

- १० और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है ॥  
उस ने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया सो मैं  
जाता रहा  
और मेरा आसरा उस ने वृक्ष की नाई उखाड़  
डाला है ॥
- ११ उस ने मुझ पर अपना कोप भड़काया  
और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है ॥
- १२ उस के दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध घुस बांधते हैं  
और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं ॥
- १३ उस ने मेरे भाइयों को मुझ से दूर किया है  
और जो मेरी जान पहचान के थे सो बिलकुल  
अनजान हो गये हैं ॥
- १४ मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गये  
और जो मुझे जानते थे सो मुझे भूल गये हैं ॥
- १५ जो मेरे घर में रहा करते वे बरन मेरी दासियां  
भी मुझे अनजाना गिनने लगीं  
उन के लेखे मैं परदेशी हो गया हूं ॥
- १६ जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वह नहीं  
बोलता  
मुझे उस से गिड़गिड़ाना पड़ता है ॥
- १७ मेरी सांस मेरी स्त्री के  
और मेरा गन्ध मेरे भाइयों<sup>१</sup> के लेखे अनजान  
का सा लगता है ॥
- १८ लड़के भी मुझे तुच्छ जानते  
और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध  
बोलते हैं ॥
- १९ मेरे सभ परम मित्र<sup>२</sup> मुझ से घिन करते हैं  
और जिन से मैं ने प्रेम किया सो पलटकर मेरे  
विरोधी हो गये हैं ॥
- २० मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गये हैं  
और अपने दांतों का झिलका ही लिये हुए मैं बच  
गया हूं ॥
- २१ हे मेरे मित्रो मुझ पर दया करो दया  
क्योंकि ईश्वर ने मुझे मारा है ॥
- २२ तुम ईश्वर की नाई क्यों मेरे पीछे पड़े हो  
और मेरे मांस से क्यों तुप्त नहीं हुए ॥
- २३ भला होता कि मेरी बातें अब लिखी जातीं  
भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जातीं,  
और लोहे की टांकी और शीशे से  
वे सदा के लिये चटान पर खोदी होतीं ॥

- मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ानेहारा २५  
जीता है  
और वह अन्त में मिट्टी पर खड़ा होगा ॥  
सो जब मेरे शरीर का यों नाश हो जाएगा २६  
तब शरीर से अलग होकर मैं ईश्वर का दर्शन  
पाऊंगा ॥  
उस का दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिये २७  
करूंगा और न कोई दूसरा  
मेरा हृदय फट चला है ॥  
मुझ में तो धर्म<sup>३</sup> का मूल पाया जाता है २८  
सो तुम जो कहते हो हम इस को क्योंकर  
सताएँ,  
इस कारण तुम तलवार से भय खाओ २९  
क्योंकि जलजलाहट से तलवार का दरद मिलता है ।  
जिस से तुम जान लो कि न्याय होता है ॥  
(सोपर का बचन)

## २०. तब नामाती सोपर ने कहा

- मेरा जी चाहता है कि उत्तर दू २  
और इस से बोलने को फुर्ती करता हूं ॥  
मैं ने ऐसी शिक्षा सुनी जिस से मेरी निन्दा ३  
हुई  
और मेरा आत्मा अपनी समझ में से मुझे उत्तर  
देता है ॥  
क्या तू यह नियम नहीं जानता जो सनातन और ४  
उस समय का है  
जब मनुष्य पृथिवी पर बसाया गया,  
कि दुष्टों का ताबी बजाना जल्दी बन्द हो ५  
जाता  
और भक्तिहीनों का आनन्द पल भर का  
होता है ॥  
चाहे ऐसे मनुष्य का माहात्म्य आकाश तक ६  
पहुंचे  
और उस का सिर बादलों से लगे,  
तौभी वह अपनी विष्ठा की नाई सदा के लिये नाश ७  
हो जाएगा  
और जो उस को देखते थे सो पूछेंगे कि वह कहां  
रहा ॥  
वह स्वप्न की नाई बिलाय जाएगा और किसी को ८  
फिर न मिलेगा

(१) मूल में मेरे गर्भ के लक्षकों ।

(२) मूल में मैद के मनुष्य ।

(३) मूल में बात ।



- रात में देखे हुए रूप की नाहें वह रहने न पाएगा ॥
- ९ जिस ने उस को देखा हों सो फिर उसे न देखेगा और अपने स्थान पर उस का कुछ पता न रहेगा<sup>१</sup> ॥
- १० उस के लड़केवाले कंगालों से भी बिन्ती करेंगे और वह अपना छीना दृग्ग माल फेर देगा ॥
- ११ उस की हड्डियों में जबानी का बल भरा हुआ है पर वह उसी के साथ मिट्टी में मिल<sup>२</sup> जाएगा ॥
- १२ चाहे बुराई उस को मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे, और वह उसे बचा रखे और न छोड़े
- १३ बरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तौभी उस का भोजन उस के पेट में पलटेगा वह उस के बीच नाग का सा विष बन जाएगा ॥
- १४ उस ने जो धन निगल लिया उसे वह फिर उगल देगा
- ईश्वर उसे उस के पेट में से निकाल देगा ॥
- १६ वह नागों का विष चूस लेगा वह करैत के डसने से मर जाएगा ॥
- १७ वह नदियों अर्थात् मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा ॥
- १८ जिस के लिये उस ने परिश्रम किया उस को उसे फेर देना पड़ेगा और वह उसे निगलने न पाएगा
- उस की मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनन्द होना चाहिये उतना तो उसे न मिलेगा ॥
- १९ क्योंकि उस ने कंगालों को पीसकर छोड़ दिया उस ने घर को छीन लिया उस को वह बढ़ाने<sup>३</sup> न पाएगा ॥
- २० लालसा<sup>४</sup> के मारे जो उस को कभी शांति न मिलती<sup>५</sup> थी इसलिये वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा न सकेगा ॥
- २१ कोई वस्तु उस का कौर बिना हुए न बचती थी इसलिये उस का कुशल बना न रहेगा ॥
- २२ पूरी संपत्ति रहते भी वह सकेती में पड़ेगा तब सब दुःखियों के हाथ उस पर उठेंगे ॥
- २३ ऐसा होगा कि उस के पेट भरने के लिये ईश्वर अपना कोप उस पर भड़काएगा

(१) मूल में उस का स्थान उसे फिर न ताकेगा । (२) मूल में लेट ।  
(३) मूल में बनाने । (४) मूल में पेट । (५) मूल में जान पड़ती ।

- और रोटी खाने के समय<sup>६</sup> वह उस पर पड़ेगा<sup>७</sup> ॥
- वह लोहे के हथियार से भागेगा २४
- और पीतल के घनुष से मारा जाएगा ॥
- वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा २५
- उस की चमकनेहारी नोक<sup>८</sup> उस के पित्त से होकर निकलेगी
- भय उस में समाएगा ॥
- उस के गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा<sup>९</sup> २६
- वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फुंकी हुई न हो
- और उसी से उस के डेरे में जो बचा हो वही भस्म हो जाएगा ॥
- आकाश उस का अधर्म प्रगट करेगा २७
- और पृथिवी उस के विरुद्ध खड़ी हीगी ॥
- उस के घर में की बढ़ती जाती रहेगी २८
- वह उस के कोप के दिन वह जाएगी ॥
- परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश २९
- और उस के लिये ईश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है ॥

(अध्याय का वचन)

२९. तब अध्याय ने कहा
- चित्त लगाकर मेरी बात सुने २
- और तुम्हारी शान्ति यही ठहरे ॥
- मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं ३
- और जब मैं बातें कर चुकूं तब पीछे ठट्टा करना ॥
- क्या मैं किसी मनुष्य की दोहाई देता हूं ४
- फिर मैं अधीर क्यों न होऊं
- मेरी ओर चित्त लगाकर चकित हो ५
- और अपनी अपनी अंगुली<sup>१०</sup> दांत तले दबाओ ॥
- जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं ६
- और मेरी देह में कपकंपी लगती है ॥
- क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीते रहते हैं ७
- बरन बूढ़े भी हो जाते और उन का धन बढ़ता जाता है ॥
- उन की सन्तान उन के संग ८
- और उन के बालबच्चे उन की आंखों के साम्हने बने रहते हैं ॥
- उन के घर में बेडर का कुशल रहता है ९

(६) वा उस की रोटी ठहराकर वा उस के मांस में ।  
(७) मूल में उस पर बरसाएगा । (८) मूल में बिजली ।  
(९) मूल में उस के छिपे दृश्यों के लिये सब अंधकार छिपा है ।  
(१०) मूल में हाथ मुंह पर रक्वों ।

- और ईश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती ॥  
 १० उन का साँड़ गाभिन करता और चूकता नहीं  
 उन की गायें बियाती हैं और गाभ कभी नहीं  
 गिरती ॥
- ११ वे अपने लड़कों को भुण्ड के भुण्ड बाहर जाने  
 देते  
 और उन के बच्चे नाचते हैं ॥
- १२ वे डफ और बीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी  
 के शब्द से आनन्दित होते हैं ॥
- १३ वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही  
 में अर्धलोक को उतर जाते हैं ॥
- १४ तो भी वे ईश्वर से कहते थे कि हम से दूर हो  
 तेरी गति जानने की हम को इच्छा नहीं  
 रहती ॥
- १५ सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उस की सेवा करें  
 और जो हम उस से बिनती भी करें तो हमें क्या  
 लाभ होगा ॥
- १६ देखो उन का कुशल उन के हाथ में नहीं रहता  
 दुष्ट लोगों का विचार मुझ से दूर रहे ॥
- १७ कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता  
 और उन पर विपत्ति आ पड़ती है  
 और ईश्वर कांप करके उन के बांट में दुःख  
 देता है,
- १८ और वे वायु से उड़ाए हुए भूसे की  
 और बज्रण्डर से उड़ाई हुई भूसी की नाईं होते हैं ॥
- १९ ईश्वर उस के अधर्म का दण्ड उस के लड़केबालों  
 के लिये रख छोड़ता है  
 वह उसे उसी को दे कि उस का बोध उसी  
 को हो ॥
- २० दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और  
 सर्वशक्तिमान की जलजलाहट में से आप  
 पी ले ॥
- २१ क्योंकि जब उस के महीनों की गिनती कट चुकी  
 तब पाँछे रहनेहारें अपने धराने से उस का क्या  
 काम रहा ॥
- २२ क्या ईश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा  
 वह तो ऊँचे पर रहनेहारों का भी न्याय  
 करता है ॥
- २३ कोई तो अपने पूरे बल में  
 बड़े चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है ॥
- २४ उस की रोहनियां दूध से  
 और उस की हड्डियां गूदे से भरी रहती हैं ॥

- और कोई अपने जीव के दुःख ही में  
 बिना कभी सुख भोगे मर जाता है ॥  
 वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते  
 और कीड़े से ढंप जाते हैं ॥
- सुनो मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूँ  
 और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय अन्याय  
 से करते हो ॥
- तुम कहते तो हो कि रईस का घर कहां रहा  
 दुष्टों के निवास के डेरे कहां रहे ॥
- पर क्या तुम ने बटोहियों से कभी नहीं पूछा  
 तुम उन के इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो,  
 कि विपत्ति के दिन के लिये दुर्जन रक्खा जाता है  
 और रोष के समय के लिये ऐसे लोग बचाए  
 जाते हैं ॥
- उस की चाल उस के मुंह पर कौन कहेगा  
 और उस ने जो किया है उस का पलटा कौन देगा ॥  
 तो भी वह कबर को पहुंचाया जाता  
 और लोग उस कबर की रखवाली करते रहते हैं ॥  
 नाले के ढेले उस का मुखदायक लगते हैं  
 और जैसे अगने लोग अनगिनित जा चुके  
 वैसे ही सब मनुष्य उस के पीछे भी चले जाएंगे ॥  
 सो तुम्हारे उत्तरो मे जा भूठ ही पाया जात है  
 तो तुम क्यों मुझे व्यर्थ शान्ति देते हो ॥

(पलीपज का वचन)

२२. तब तेमानी एलीपज ने कहा  
 क्या पुरुष से ईश्वर को लाभ पहुंच  
 सकता  
 जो बुद्धिमान है सो अपने ही लाभ का कारण  
 होता है ॥  
 क्या तेरे धर्मों होने से सर्वशक्तिमान सुख पा  
 सकता  
 तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो  
 सकता ॥  
 वह जो तुम्हें डांटता है और तुम्हें से मुकद्दमा  
 लड़ता है  
 क्या इस कारण तेरी भक्ति हो सकती है ॥  
 क्या तेरी बुराई बहुत नहीं  
 तेरे अधर्मों के कामों का कुछ अन्त नहीं ॥  
 तू ने तो अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया  
 और नंगे के रख उतार लिये थे ॥

(१) मूल में कहवाहट । (२) मूल में लेट । (३) मूल में पहुंचाये  
 जाते हैं । (४) वा और कबर पर पहरा देता रहता है ।

- ७ थके हुए को तू ने पानी न पिलाया  
और भूखे को रोंटी देने से नाह की थी ॥
- ८ जो बरियार था उसी को भूमि मिली  
और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई थी सोई उस में  
बस गया ॥
- ९ तू ने विषबाओं को छूछे हाथ लौटा दिया  
और अपमूर्खों की बाँहें तोड़ डाली गई थी ॥
- १० इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं  
और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है ॥
- ११ क्या तू अधियारे को नहीं देखता  
और उस बाढ़ को जिस में तू डूब रहा है ॥
- १२ क्या ईश्वर स्वर्ग के ऊँचे स्थान में नहीं है  
ऊँचे से ऊँचे तारों को देख कि वे कितने ऊँचे हैं ॥
- १३ फिर तू कहता है कि ईश्वर क्या जानता है  
क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय  
कर सकता है ॥
- १४ काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि  
कुछ नहीं देख सकता  
वह तो आकाशमण्डल ही के ऊपर चलता  
फिरता है ॥
- १५ क्या तू उस पुरानी डगर को पकड़े रहेगा  
जिस पर वे अनर्थ करनेहारें चलते थे,  
जो असमय कट गये  
और उन के घर की नेब नदी सी बह गई ॥
- १७ उन्होंने ने ईश्वर से कहा था हम से दूर हो जा  
और सर्वशक्तिमान हमारा<sup>१</sup> क्या कर सकता है ॥
- १८ तोभी उस ने उन के घर अच्छे, अच्छे पदार्थों से  
भर दिये थे  
दुष्ट लोगों का विचार मुझ से दूर रहे ॥
- १९ घर्मी लोग देखकर आनन्दित होते और निर्दोष  
लोग उन की ईंसी करते हैं कि,  
जो हमारे बिरुद्ध उठे थे सो निःसन्देह मिट गये  
और उन का बड़ा धन आग का कौर हो  
गया है ॥
- २१ उस से भेलमिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी  
और जिस से तेरी मलाई होगी ॥
- २२ उस के मुँह से शिक्षा सुन ले  
और उस के वचन अपने मन में रख ॥
- २३ यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए  
और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन  
जाएगा ॥

(१) मूल में उन का ।

- तू अपनी अनमोल वस्तुओं को<sup>२</sup> धूलि पर बरन २४  
ओपीर का कुन्दन भी नालों के पत्थरों में डाल दे ॥  
तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु<sup>३</sup> २५  
और तेरे लिये चमकनेहारी चांदी होगा ॥  
तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा २६  
और ईश्वर की ओर अपना मुँह बखटके उठा सकेगा ॥  
और तू उस से प्रार्थना करेगा २७  
और वह तेरी सुनेगा  
और तू अपनी मजतों को पूरी करेगा ॥  
और जो बात तू ठाने सो तुझ से बन भी पड़ेगी २८  
और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा ॥  
चाहे दुर्भाग्य हो<sup>४</sup> तो तू कहेगा कि सुभाग्य हो<sup>५</sup> २९  
क्योंकि वह नभ मनुष्य को बचाता है ॥  
बरन जो निर्दोष न हो उस को भी वह बचाता है ३०  
अर्थात् वह तेरे शुद्ध कामों<sup>६</sup> के कारण छुड़ाया  
जाएगा ॥

(अथर्व का वचन)

२३. तब अथर्व ने कहा  
मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं २  
रक सकती<sup>७</sup>  
मेरी मार<sup>८</sup> मेरे कराहने से भारी है ॥  
भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता ३  
और उस के विराजने के स्थान तक जा सकता ॥  
मैं उस के साम्हने अपना मुकद्दमा पेश करता ४  
और बहुत से<sup>९</sup> प्रमाण देता ॥  
मैं जान लेता कि वह मुझ से उत्तर में क्या कह ५  
सकता  
और जो कुछ वह मुझ से कहता सो मैं समझ लेता ॥  
क्या वह अपना बड़ा बल दिखा कर मुझ से मुकद्दमा ६  
लड़ता  
नहीं वह मुझ पर ध्यान देता ॥  
तब सबन उस से विवाद कर सकता ७  
और इस रीति मैं अपने न्यायी के हाथ से सदा के  
लिये छूट जाता ॥  
सुनो मैं आगे जाता पर वह नहीं मिलता ८  
मैं पीछे हटता हूँ पर वह देख नहीं पड़ता ॥  
जब वह बाईं ओर में काम करता है तब वह मुझे ९  
दिखाई नहीं देता

(२) मूल में खान से निकला हुआ सोना चांदी ।

(३) मूल में तेरा धातु । (४) मूल में वे नीचे होंगे ।

(५) मूल में ऊँचाई । (६) मूल में हाथों । (७) मूल में ठिठार है ।

(८) मूल में हाथ । (९) मूल में मुँह भर के ।

जब वह बहनी और मुड़ता है तब वहाँ भी मुझ  
देख नहीं पड़ता ॥  
१० पर वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ  
और अब वह मुझे ता ले तब मैं सोने के समान  
निकलूंगा ॥  
११ मेरे पैर उस की डगरो में स्थिर रहे  
और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े पकड़े रहा ॥  
१२ उस की आशा के पालने से मैं न हटा  
और मैं ने उस के बचन अपनी इच्छा से कहीं  
अधिक काम के जानकर रख छोड़े ॥  
१३ पर वह एक ही बात पर अका रहता और कोई  
उस को उस से फेर नहीं सकता  
जो वह आप चाहता है सोई वह करता है ॥  
१४ जो कुछ मेरे लिये ठना है उसी को वह पूरा  
करता है  
और उस के मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें  
हैं ॥  
१५ इस कारण मैं उस को देखते घबराता जाता हूँ  
जब मैं सोचता हूँ तब उस से थरथरा उठता हूँ ॥  
१६ क्योंकि मेरा मन ईश्वर ही ने कब्जा कर दिया  
और सर्वशक्तिमान ही ने मुझ को धरवा  
दिया है ॥  
१७ सो मेरा सत्यानाश न तो अधियारे के कारण  
हुआ  
और न इस कारण कि घोर अंधकार मेरे मुँह पर  
छा गया है ॥

**२४. सर्वशक्तिमान से समय क्यों नहीं  
ठहराये जाते**  
और जो लोग उस का ज्ञान रखते हैं सो उस के  
दिन क्यों देखने नहीं पाते ॥

२ कुछ लोग मेंदों को बढ़ाते  
और भेड़ बकरियाँ छीनकर चराते हैं ॥  
३ और वे बपमूँओं का गदहा हाँक ले जाते  
और विभवा का बैल बंधक कर रखते हैं ॥  
४ वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते  
और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है ॥  
५ देखो वे बनैले गदहों की नाई  
अपने काम को अर्थात् कुछ खाना यज्ञ से  
हँडने को निकल जाते हैं

उन के लड़केवालों का भोजन उन को जंगल से  
मिलता है ॥  
उन को खेत में चारा काटना ६  
और दुष्टों की बची बचाई दाख बटोरना पड़ता है ॥  
रात को उन्हें बिना वस्त्र उधारा पड़ना ७  
और जाड़े के समय बिना ओढ़े रहना पड़ता है ॥  
वे पहाड़ों पर की भड़ियों से भीगे रहते और शरण ८  
न पाकर चटान से लिपट जाते हैं ॥  
कुछ लोग बगमुए बालक को मा की छाती पर से ९  
छीन लेते  
और दीन लोगों से बंधक लेते हैं,  
जिस से वे बिना वस्त्र उधारे फिरते हैं १०  
और पुलियां टोते समय भी भुंखे रहते हैं ॥  
व उन की भीतों के भीतर तेल घेरते ११  
और उन के कुण्डों में दाख रौंदते हुए भी प्यासे  
रहते हैं ॥  
वे बड़े नगर में कराहते १२  
और घायल किये हुआँ का जी दोहाई देता है  
पर ईश्वर मूर्खता का लेखा नहीं लेता ॥  
फिर कुछ लोग उजियाले से बैर रखते १३  
वे उस के मार्गों को नहीं पहचानते  
और न उस की डगरो में बने रहते हैं ॥  
खूनी पह फटते ही उठकर १४  
दीन दरिद्र मनुष्य को घात करता  
और रात को चीर बन जाता है ॥  
व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई मुझ को देखने १५  
न पाए  
दिन डूबने की राह देखता रहता  
और वह अपना मुँह छिपा भी रखता है ॥  
वे अधियारे के समय घरो में सँभ मारते और दिन १६  
को छिपे रहते हैं  
वे उजियाले को जानते भी नहीं ॥  
सो उन सभी को भोर का प्रकाश घोर अंधकार सा १७  
जान पड़ता है  
क्योंकि घोर अंधकार का भय वे जानते हैं ॥  
वे जल के ऊपर हलकी वस्तु के सरीखे हैं १८  
उन के भाग को पृथिवी के रहनेहारे कोसते हैं  
और वे अपनी दाख की बारियों में लौटने नहीं पाते ॥  
जैसे सूखे और घाम से हिम का जल बिलाय १९  
जाता है

वैसे ही पापी लोग अधोलोक में बिलाय जाते हैं ॥

(५) मूल में बीना ।

(१) मूल में उस को होठों की । (२) मूल में उस के मुँह को ।

(३) मूल में विधि । (४) मूल में तबके उठकर ।

- २० माता<sup>१</sup> भी उस को भूल जाती और कड़े उसे  
चूसते हैं  
आगे को उम का स्मरण न रहेगा  
इस रीति टेढ़े काम करनेवाए वृक्ष की नाई कट  
जाता है ॥
- २१ वह बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता  
और बिधवा से भलाई करना नकारता है ॥
- २२ बलातकारियों की भी ईश्वर अपनी शक्ति से रक्षा  
करता है  
जो जीने की आशा नहीं रखता वह भी फिर उठ  
बैठता है ॥
- २३ ईश्वर उन्हें ऐसे बेखटके कर देता है कि वे संभले  
रहते हैं  
और उस की कृपादृष्टि उन की चाल पर लगी  
रहती है ॥
- २४ वे बढ़ते हैं तब थोड़ी बेर में बिलाय जाते  
वे दबाये जाते और सभों की नाई रख लिये जाते हैं  
और अनाज की बाल की नाई काटे जाते हैं ॥
- २५ क्या यह सब सच नहीं कौन मुझे भुल्लाएगा कौन  
मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा ॥  
(शही बिल्द का वचन)

### २५. तब शही बिल्द ने कहा

- १ प्रभुता करना और डराना यह  
उसी का काम है  
वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में संधि कर रखता है ॥
- २ क्या उस की सेनाओं की गिनती हां सकती और  
कौन है जिस पर उस का प्रकाश नहीं पड़ता ॥
- ४ फिर मनुष्य ईश्वर के लेखे धर्मा क्योंकर ठहर  
सकता  
और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है सो क्योंकर निर्मल  
हो सकता है ॥
- ५ देख उस की दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता  
और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते ॥
- ६ फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है और  
आदमी कहां रहा जो केंचुआ है ॥  
(अध्याय का वचन)

### २६. तब अध्याय ने कहा

- १ निर्बल जन की तू ने क्या ही बड़ी सहायता की  
और जिस की बांह में सामर्थ्य नहीं उस को तू ने  
कैसे संभाला है ॥

- निर्बद्धि मनुष्य को तू ने क्या ही अच्छी समति दी  
और अपनी खरी बुद्धि कैसी ही भली भांति प्रगट  
की है ॥
- तू ने किस के हित के लिये बातें कहीं  
और किस के मन की बातें तेरे मुंह से निकलीं<sup>२</sup>
- बहुत दिन के मरे हुए लोग भी  
जलनिधि और उस के निवासियों के तले तड़-  
पते हैं ॥
- अधोलोक उस के साम्हने उबड़ा रहता है  
और बिनाश का स्थान दंप नहीं सकता ॥
- वह उत्तर दिशा के निराधार फैलाये रहता है ७  
और बिना टेक<sup>३</sup> पृथिवी को लटकाये रखता है ॥
- वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध  
रखता  
और बादल उस के बोझ से नहीं फटता ॥
- वह अपने सिंहासन के साम्हने बादल फैलाकर ९  
उस को छिपाये रखता है ॥
- उजियाले और अंधियारे के बीच जहां सिवाना १०  
बंधा है  
यहां लों उस ने जलनिधि का सिवाना ठहरा  
रक्खा है ॥
- उस की घुड़की से ११  
आकाश के खंभे थरथराकर चकित होते हैं ॥
- वह अपने बल से समुद्र को उछालता १२  
और अपनी बुद्धि से रहस्य को पटक देता है ॥
- उस के आत्मा से आकाशमण्डल स्वच्छ हो १३  
जाता है  
वह अपने हाथ से भागनेहारा नाग मार देता है ॥
- देखो ये तो उस की गति के किनारे ही हैं १४  
और उस की आइट फुसफुसाइट ही सी तो सुन  
पड़ती है  
फिर उस के पराक्रम के गरजने का मेद कौन समझ  
सकता है ॥
२७. अध्याय ने और भी अपनी गूढ़ बात  
उठाई और कहा,  
मैं ईश्वर के जीवन की सीं खाता हूं जिस ने मेरा २  
न्याय बिगाड़ दिया  
अर्थात् उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिस ने  
मेरा जीव कड़वा कर दिया ॥

(१) मूल में किस की सांस तुक से निकली ।

(२) मूल में नास्तिक के ऊपर ।

- १ क्योंकि अब लो मेरी सांस बराबर आती है  
और ईश्वर का आत्मा<sup>१</sup> मेरे नधुनों में बना है ॥
- ४ मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुँह से कोई कुटिल बात न  
निकलेगी  
और न मैं<sup>२</sup> कपट की बातें बोलूंगा ॥
- ५ ऐसा न हो कि मैं तुम लोगों को सबा ठहराऊँ  
जब लो मेरा प्राण न छूटे तब लो मैं अपनी  
खराई से न मुकरूंगा<sup>३</sup> ॥
- ६ मैं अपना धर्म पकड़े हूँ और उस को हाथ से  
जाने न दूंगा  
क्योंकि मेरा मन जीवन भर के किसी दिन के  
विषय मुझे दोषी नहीं ठहराता ॥
- ७ मेरा शत्रु दुष्टों के समान  
और जो मेरे विरुद्ध उठता है सो कुटिलों के  
तुल्य ठहरे ॥
- ८ जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण निकालकर  
हर ले  
तब उस की क्या आशा रहेगी ॥
- ९ जब वह संकट में पड़े  
तब क्या ईश्वर उस की दोहाई सुनेगा ॥
- १० क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और  
हर समय ईश्वर को पुकार सकेगा ॥
- ११ मैं तुम्हें ईश्वर के काम<sup>४</sup> के विषय शिक्षा दूंगा  
और सर्वशक्तिमान की बात<sup>५</sup> मैं न छिपाऊंगा ॥
- १२ सुनो तुम लोग सब के सब उसे आप देख चुके हो  
फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो ॥
- १३ दुष्ट मनुष्य का भाग ईश्वर की ओर से यह है  
और बलात्कारियों का अंश जो वे सर्वशक्तिमान  
के हाथ से पाते हैं सो यह है कि
- १४ चाहे उस के लड़केबाले गिनती में बढ़ भी जाएं  
तौभी तलवार ही के लिये बढ़ेंगे  
और उस की सन्तान पेट भर रोटी न खाने  
पाएगी ॥
- १५ उस के जो लोग बचे रहें सो मरकर कबर को  
पहुँचेंगे  
और उस के यहां की विधवाएँ न रोएंगी ॥
- १६ चाहे वह रुपया धूलि के समान बटोर रखले

- और बख मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार  
कराए,  
वह उन्हें तैयार कराए तो सही पर धर्मी उन्हें १७  
पहिन लेगा  
और उस का रुपया निर्दोष लोग आपस में बाँटेंगे ॥  
उस ने अपना घर कीड़े का सा बनाया १८  
और खेत के रखवाले की भोंपड़ी की नाई  
बनाया ॥  
वह धनी होकर लोट जाए पर ऐसा फिर करने न १९  
पाएगा  
पलक मारते ही वह न रह जाएगा ॥  
भय की धाराएँ उसे बहा ले जाएंगी<sup>६</sup> २०  
रात को बरखडर उस को उड़ा ले जाएगा ॥  
पुरवाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी कि वह जाता २१  
रहेगा  
और उस को उस के स्थान से उड़ा ले जाएगी ॥  
क्योंकि ईश्वर उस पर विपत्तियाँ बिना तरस खाये २२  
डाल देगा  
उस के हाथ से वह भाग जाने चाहेगा ॥  
लोग उस पर ताली बजाएंगे २३  
और उस पर ऐसी हथोड़ी पीटेंगे कि वह अपने यहां  
न रह सकेगा ॥
२८. चांदी की खानि तो होती है  
और उस सोने के लिये भी  
स्थान होता है जिसे लोग ताते हैं ॥  
लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर २  
पिघलाकर पीतल बनाया जाता है ॥  
मनुष्य अधियारे को दूर कर ३  
दूर दूर लो खोद खोदकर  
अधियारे और धार अधकार में के पत्थर हूँदते हैं ॥  
जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानि खोदते हैं ४  
वहां पृथिवी पर चलनेहारों के बिसराये<sup>७</sup> हुए वे  
मनुष्यों से दूर लटके हुए डोलते रहते हैं ॥  
यह भूमि जो है इस से रोटी तो मिलती है पर ५  
उस के नीचे के स्थान मानो भाग से उलट दिये  
जाते हैं ॥  
उस के पत्थर नीलमणि का स्थान हैं ६  
और उसी में सोने की धूलि भी है ॥  
उस की डगर कोई मांसहारी पत्नी नहीं जानता ७

(१) वा ईश्वर का दिया हुआ प्राण । (२) मूल में मेरी जीभ ।

(३) मूल में हटाऊंगा । (४) मूल में ईश्वर के हाथ । (५) मूल में जो सर्वशक्तिमान के संग है ।

(६) मूल में जा लेगी । (७) मूल में पाँच से ।

- और किसी चीज़ की इच्छा उस पर नहीं पड़ी ॥  
 ८ उस पर अभिमानी पशुओं ने पाव नहीं धरा  
 और न उस से होकर कोई सिंह कमी गया है ॥  
 ९ वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता  
 और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है ॥  
 १० वह चटान खोदकर नालियाँ बनाता  
 और उस की आंखों को हर एक अनमोल वस्तु  
 देख पड़ती है ॥  
 ११ वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उन से एक  
 बून्द भी पानी नहीं टपकता ?  
 और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में  
 निकालता है ॥  
 १२ पर बुद्धि कहाँ मिल सकती  
 और समझ का स्थान कहाँ है ॥  
 १३ उस का मोल मनुष्य को मालूम नहीं  
 जीवनलोक में वह कहीं नहीं मिलती ॥  
 १४ अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है  
 और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है ॥  
 १५ चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता  
 और न उस के दाम के लिये चान्दी तौली जाती है ॥  
 १६ न तो उस के साथ ओपीर के कुन्दन की बराबरी  
 हो सकती है  
 और न अनमोल सुलैमानी पत्थर वा नील  
 मणि की ॥  
 १७ न सोना न काँच उस के बराबर ठहर सकता है  
 कुन्दन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती ॥  
 १८ मंगे और स्फटिकमणि की उस के आगे क्या  
 चर्चा  
 बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है ॥  
 १९ कूश देश के पद्मराग उस के तुल्य नहीं ठहर  
 सकते  
 और न उस से चोखे कुन्दन की बराबरी हो  
 सकती है ॥  
 २० फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है  
 और समझ का स्थान कहाँ  
 २१ वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है  
 और आकाश के पक्षियों के देखाव में नहीं है ॥  
 २२ बिनाश और मृत्यु कहती हैं  
 कि हम ने उस की चर्चा सुनी है ॥

(१) मूल में आंशु बहाने से ।

- परन्तु परमेश्वर उस का मार्ग समझता है २३  
 और उस का स्थान उस को मालूम है ॥  
 वह तो पृथिवी की छोर सों ताकता रहता २४  
 और सारे आकाशमण्डल के तले देखता माणता  
 है ॥  
 जब उस ने वायु का तौल ठहराया २५  
 और जल को नपुष्ट में नापा  
 और मेंह के लिये बिचि २६  
 और गर्जन और बिजली के लिये मार्ग ठहराया  
 तब उस ने बुद्धि को देखकर उस का बखान भी २७  
 किया  
 और उस को सिद्ध करके उस का सारा मैद बूझ  
 लिया ॥  
 तब उस ने मनुष्य से कहा २८  
 सुन प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है  
 और बुराई से दूर रहना यही समझ है ॥  
 (अव्यय का वचन)  
 २९. अथर्व ने और भी अरुणी गूढ़ बात  
 उठाई और कहा  
 भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी २  
 होती  
 जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता था,  
 जब उस के दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था ३  
 और उस से उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता  
 था ॥  
 वे तो मेरी अवानी<sup>२</sup> के दिन थे ४  
 जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रगट होती थी ॥  
 तब तो तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था ५  
 और मेरे लड़केवाले मेरे चारों ओर रहते थे ॥  
 तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और ६  
 मेरे पास की चटानों से तेल की धाराएँ बहा  
 करती थी ॥  
 जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले ७  
 स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था ॥  
 तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते ८  
 और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे ॥  
 हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते ९  
 और हाथ से मुँह मँदे रहते थे ॥  
 प्रधान लोग चुप रहते थे ? १०

(२) मूल में फल पकने के समय ।

(३) मूल में प्रधानों की वाणी छिप जाती थी ।

- और उन की जीभ तालू से सट जाती थी ॥  
 ११ क्योंकि जब कोई<sup>१</sup> मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था  
 १२ इस कारण कि मैं दोहाई देनेहारे दीन जन को और असहाय बपमुए को भी छुड़ाता था ॥  
 १३ जो नाश होने पर था सो मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनन्द के मारे गाती थीं ॥  
 १४ मैं धर्म को पहिने रहा और वह मुझे पहिने रहा मेरा न्याय का काम मेरे लिये वागे और सुन्दर पगड़ी का काम देता था ॥  
 १५ मैं अन्धों के लिये आंखें और लंगड़ों के लिये पांखें ठहरता था ॥  
 १६ दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता और जो मेरी पहिचान का न था उस के मुकद्दमे का हाल मैं पूछपाछ करके जान लेता था ॥  
 १७ मैं कुटिल मनुष्यों की डाढ़ें तोड़ डालता और उन का शिकार उन के मुह से छीनकर बचा लेता था ॥  
 १८ तब मैं सोचता था कि मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा ॥  
 १९ मेरी जड़ जल की ओर फैली<sup>२</sup> और मेरी डाली पर औस रात भर पड़ी रहेगी मेरी महिमा ज्यों की त्यों<sup>३</sup> बनी रहेगी और मेरा घनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा ॥  
 २१ लोग मेरी ही ओर कान लगाकर ठहरते और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे ॥  
 २२ जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ न बोलते थे मेरी बातें उन पर मेह की नाई बरसा करती थीं ॥  
 २३ जैसे लोग बरसात की बैसे ही मेरी भी बाट देखते थे और जैसे बरसात के अन्त की वर्षा के लिये बैसे ही वे आंखें लगाते<sup>४</sup> थे ॥

जब उन को कुछ आशा न रहती तब मैं हंसकर २४ उन को प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था ॥ मैं उन का मार्ग चुन लेता और उन में मुख्य २५ ठहरकर बैठा करता और जैसा सेना में राजा वा विलाप करनेहारों के बीच शांतिदाता वैसा ही मैं रहता था ॥

३०. पर अब जिन की अवस्था मुझ से कम है वे मेरी हंसी करते जिन के पिताओं को मैं अपनी मेढ़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य न जानता था<sup>५</sup> ॥ उन के भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता २ था उन का पौरुष तो जाता रहा था ॥ वे घटी और काल के मारे दुबले पड़े ३ हुए हैं वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं ॥ वे भाड़ी के आस पास का लोनिया साग तोड़ ४ लेते और भाऊ की जड़ें खाते हैं ॥ वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं, ५ उन के पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे ॥ डरावने नालों में भूमि के बिलों में और चटानों में उन्हें रहना पड़ता है ॥ वे भाड़ियों के बीच रेंकते ६ और बिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं ॥ वे मृदों और नीच लोगों<sup>६</sup> के बंश हैं ७ जो मार मार के इस देश से निकाले गये थे ॥ ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते ८ और मुझ पर ताना मारते हैं ॥ वे मुझ से बिन खाकर दूर रहते ९ वा मेरे मुंह पर धूकने से भी नहीं डरते<sup>७</sup> ॥ ईश्वर ने जो मेरी रस्ती खोलकर मुझे दुःख दिया है ११ सो वे मेरे साम्हने मुंह में लगाम नहीं रखते ॥ मेरी दहिनी अलंग पर बजारू लोग उठ खड़े होते १२ हैं वे मेरे पांखें सहक देते

(१) मूल में काम । (२) मूल में खुली । (३) मूल में टठकी ।  
 (४) मूल में मुंह खोलते ।

(५) मूल में कुत्तों के साथ ठहराना नकारता था । (६) मूल में नामरहितों । (७) मूल में मुंह से धूक नहीं रख सकते ।



- और मेरे नाश के लिये घुस<sup>१</sup> बांधते हैं ॥  
 १३ जिन के कोई सहायक नहीं  
 सो भी मेरी डगरों को बिगाड़ते  
 और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं<sup>२</sup> ॥  
 १४ मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते  
 और उजाड़ के बीच हो मुझ पर धावा करते हैं ॥  
 १५ मुझ को बबराहट आ गई है<sup>३</sup>  
 और मेरा रईसपन मानों वायु से उड़ाया गया  
 और मेरा कुशल बादल की नाई जाता रहा है ॥  
 १६ और अब मैं शोकसागर में डूबा जाता हूँ<sup>४</sup>  
 दुःख के दिन आये हैं<sup>५</sup> ॥  
 १७ रात को मेरी हड्डियां छिद जाती हैं<sup>६</sup>  
 और मेरी नसें में चैन नहीं पड़ती<sup>७</sup> ॥  
 १८ ईश्वर के बड़े बल से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है  
 वह मेरे कुत्तों के गले की नाई मुझे जकड़  
 रखता है ॥  
 १९ उस ने मुझ को कीच में फेंक दिया है  
 और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ ॥  
 २० मैं तेरी दोहाई देता पर तू नहीं सुनता  
 मैं खड़ा होता हूँ पर तू मेरी ओर मुंह किये  
 रहता है ॥  
 २१ तू मेरे लिये क्रूर हो गया है  
 और अपने बली हाथ से मुझे सताता है ॥  
 २२ तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता  
 और आंधी के पानी में मुझे गला देता है ॥  
 २३ मुझे निश्चय है कि तू मुझे काल के वश कर  
 देगा और उस घर में पहुंचाएगा जिस में सब प्राणी  
 मिल जाते हैं ॥  
 २४ तौभी क्या कोई गिरते समय हाथ न बड़ाए  
 और क्या कोई विपत्ति के समय<sup>८</sup> दोहाई न दे ॥  
 २५ मैं तो उस के लिये रोता था जिस के दुर्दिन आये थे  
 और दरिद्र जन के कारण मैं भी से दुःखित  
 होता था ॥  
 २६ जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति  
 पड़ी  
 और जब मैं उजियाले का आसरा लगाये रहा  
 तब अंधकार छा गया ॥

(१) मूल में अपनी डगरों । (२) मूल में विपत्ति को सहायता करते हैं । (३) मूल में मुझ पर बबराहट घुसाई गई । (४) मूल में मेरा जीव मेरे ऊपर उड़ता जाता है । (५) मूल में दुःख के दिनों ने मुझे पकड़ा है । (६) मूल में मुझ पर से छिदती हैं । (७) मूल में मेरी नसें नहीं सोती । (८) मूल में होते इस कारण ।

- मेरा हृदय निरंतर जलता रहता है<sup>९</sup> २७  
 मेरे दुःख के दिन आ गये हैं ॥  
 मैं शोक का पहिरावा पहिने हुए मानो बिना २८  
 सूर्य के चलता फिरता था  
 और सभा में खड़ा होकर दोहाई देता था ॥  
 मैं गीदड़ों का भाई २९  
 और शुतुर्मुर्गों का संगी हो गया हूँ ॥  
 मेरा चमड़ा काला होकर उचलता जाता है ३०  
 और तप के मारे मेरी हड्डियां जलती हैं ॥  
 इस कारण मेरा बोंगा बनाना बिलाप से ३१  
 और मेरा बांसुरी बनाना राने से बदल गया ॥

### ३१. मैं ने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी थी

- सो मैं किसी कुंवारी पर क्योकर आंखें लगाऊं ॥  
 क्योंकि ईश्वर स्वर्ग से कौन अंश २  
 और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन भाग बांटता है ॥  
 क्या वह कुटिल मनुष्यों की विपत्ति ३  
 और अनर्थ काम करनेहारों का सस्थानाथ  
 नहीं है ॥  
 क्या वह मेरी गति नहीं देखता ४  
 क्या वह मेरे पग पग नहीं गिनता ॥  
 यदि मैं व्यर्थ चाल चला होऊं ५  
 वा कपट करने के लिये दौड़ा होऊं<sup>१०</sup>,  
 तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं ६  
 कि ईश्वर मेरी खगाई जान ले ॥  
 यदि मेरे पग मार्ग से मुड़े हों ७  
 वा मेरा मन आंखों के पीछे हो लिया हो  
 वा मेरे हाथों को कुछ कर्कक लगा हो  
 तो मैं बीज बोऊं पर दूसरा खाए ८  
 बरन मेरा खेत उखाड़ डाला जाए  
 यदि मैं किसी स्त्री के फन्दे में फंसा होऊं ९  
 वा अपने पड़ोसी के द्वार पर घात लगाई हो  
 तो मेरी स्त्री दूसरे की पिसनहारी होए १०  
 और पराये पुरुष उस को अष्ट करें ॥  
 क्योंकि वह तो महापाप ११  
 और न्यायियों से दख पाने के योग्य अधर्म का काम  
 होता ॥  
 क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर नाश कर १२  
 देती है

(९) मूल में झूलती है और चुप नहीं होती ।

(१०) मूल में मेरा पांव दौड़ा हो ।

- और वह मेरी सारी उपज उखाड़ देती ॥  
 १३ जब मेरे दास वा दासी मुझ से झगड़ती रहीं  
 तब यदि मैं उन का हक तुच्छ जानता  
 १४ तो ईश्वर के उठ खड़े होने के समय मैं क्या करता ॥  
 और उस के लेखा लेने पर मैं क्या लेखा दे सकता ॥  
 १५ जिस ने मुझ को पेट में गढ़ा क्या उस ने उस को  
 भी न गढ़ा  
 क्या एक ही ने हम दोनों को गर्भ में न रचा था ॥  
 १६ यदि मैं ने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो  
 वा मेरे कारण विधवा की आंखें कमी रह गई हों  
 १७ वा मैं ने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो  
 और उस में से बपमुए न खाने पाये हों  
 १८ (पर वह मेरे लड़कपन ही से मुझे पिता जानकर  
 मेरे संग बढ़ा है  
 और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ)  
 १९ यदि मैं ने किसी को बख्त बिना मरते हुए  
 वा किसी दरिद्र को बिन ओढ़ने देखा हो  
 २० और उस को अपनी मेढ़ों की उन के कपड़े न  
 दिये हो  
 और उस ने गर्भ होकर मुझे आशीर्वाद न दिया हो<sup>१</sup>  
 २१ वा यदि मैं ने फाटक में अपने सहायक देखकर  
 बपमुओं के मारने को अपना हाथ उठाया हो  
 २२ तो मेरी बांह पखौड़े से उखड़कर गिर पड़े  
 और मेरी मुजा की हड्डी टूट जाए<sup>२</sup> ॥  
 २३ ईश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा न कर सकता था  
 क्योंकि उस की ओर की विपत्ति के कारण मैं  
 थरथराता था ॥  
 २४ यदि मैं ने सोने का भरोसा किया होता  
 वा कुन्दन को अपना आसरा कहा होता  
 २५ वा अपने बहुत से धन  
 वा अपनी बड़ी कमाई के कारण आनन्द किया  
 होता  
 २६ वा सूर्य को चमकते  
 वा चन्द्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर  
 २७ मैं मन ही मन बहक जाता  
 और अपने मुंह से अपना हाथ चूमा होता<sup>३</sup>  
 २८ तो यह भी न्यायियों से दण्ड पाने के योग्य अधर्म  
 का काम होता  
 क्योंकि ऐसा करके मैं ऊपर के ईश्वर के विषय  
 पाखण्ड करता ॥

- यदि मैं ने अपने बैरी के नाश से आनन्द किया २९  
 होता  
 वा जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर फूल  
 उठा होता  
 (पर मैं ने न तो उस को स्नाय देते हुए न उस ३०  
 के प्राणदण्ड की प्रार्थना करते हुए अपने  
 मुंह<sup>४</sup> से पाप किया है)  
 यदि मेरे डेरे के रहनेहारों ने यह न कहा होता ३१  
 कि ऐसा कोई कहां मिलेगा जो इस के यहां का  
 मांस खाकर तृप्त न हुआ हो  
 (परदेशी को सड़क पर टिकना न पड़ता था मैं ३२  
 बटोही<sup>५</sup> के लिये अपना द्वार खुला रखता था)  
 यदि मैं ने आदम की नाई अपना अपराध इस ३३  
 लिये दांपा होता  
 और अपना अधर्म मन में<sup>६</sup> छिपाया होता  
 कि मैं बड़ी भीड़ से घास खाता ३४  
 वा कुलीनों<sup>७</sup> से तुच्छ किये जाने का भय मानता  
 जिस से मैं द्वार से बिना निकले चुपचाप रहता—  
 भला होता कि मेरे कोई सुननेहारा होता सर्व- ३५  
 शक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए देखो मेरा  
 दस्तखत यही है ॥  
 भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुहई ने  
 लिखा है सो मेरे पास होता ॥  
 निश्चय मैं उस को अपने कंधे पर उठाये फिरता ३६  
 और सुन्दर पगड़ी जानकर अपने सिर में बांधे  
 रहता ॥  
 मैं उस को अपने पग पग का लेखा देता मैं उस ३७  
 के निकट प्रधान की नाईं निबर जाता ॥  
 यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दोहाई देती हो और ३८  
 उस की रेधारियां मिलकर रोती हों  
 यदि मैं ने अपनी भूमि की उपज बिना मज्दूरी<sup>८</sup> ३९  
 दिये खाईं  
 वा उस के मालिक का प्राण छुड़ाया हो  
 तो गेहूं के बदले झड़बेड़ी ४०  
 और जब के बदले जंगली घास उगें ॥  
 अथर्व के वचन पूरे हुए हैं ॥  
 (धलीहू का वचन)

३२. तब उन तीनों पुरुषों ने यह देख  
 कर कि अथर्व अपने लेखे  
 निदीष है उस को उत्तर देना छोड़ दिया । और बूजी २

(१) मूल में उस की कसर ने मुझे आशीर्वाद न दिया हो । (२) मूल में मेरी  
 मुजा नरट से टूट जाए । (३) मूल में मेरा हाथ मेरे मुंह को चूमता ।

(४) मूल में तालू । (५) मूल में बांट । (६) मूल में अपनी गोद  
 में । (७) मूल में कुली । (८) मूल में रुपये ।

- बारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था उस का कोप भड़क उठा अय्युब पर उस का कोप इसलिये भड़क उठा कि उस ने परमेश्वर को नहीं अपने ही को निर्दोष ठहराया । फिर अय्युब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उस का कोप इस कारण भड़का कि वे अय्युब को उत्तर न दे सके तौभी उस को दोषी ठहराया । एलीहू तो अपने को उन से छोटा जानकर अय्युब की बातों के अन्त की बाट जोहता रहा । पर जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते तब उस का कोप भड़क उठा ॥
- ३ सो भूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा कि मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो इस कारण मैं रुका रहा और अपना मत तुम को बताने से डरता था ॥
- ४ मैं सोचता था कि जो दिनी हैं वे ही बातें करें और जो बहुत बरस के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं ॥
- ५ परन्तु मनुष्य में आत्मा तो है ही और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है ॥
- ६ जो बुद्धिमान हैं सो बड़े बड़े लोग ही नहीं और न्याय के समझनेहारे बूढ़े ही नहीं होते ॥
- ७ इसलिये मैं कहता हूँ कि मेरी भी सुनो<sup>१</sup> मैं भी अपना मत बताऊंगा ॥
- ८ मैं तो तुम्हारी बातें सुनने का ठहरा रहा मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिये ठहरा रहा जब कि तुम कहने के लिये कुछ खोजते रहे ॥
- ९ मैं चिन्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा पर किसी ने अय्युब के पक्ष का खण्डन नहीं किया और न उस की बातों का उत्तर दिया ॥
- १० तुम लोग मत समझो कि हम को ऐसी बुद्धि मिली है उस का खण्डन मनुष्य नहीं ईश्वर ही कर सकता है ॥
- ११ जो बातें उस ने कहीं से मेरे विरुद्ध तो नहीं कहीं और न मैं तुम्हारा ही बातों से उस को उत्तर दूंगा ॥
- १२ वे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं देते हैं उन्हों ने बातें करना छोड़ दिया<sup>२</sup> ॥
- १३ सो वे जो कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े रहते हैं

(१) मूल में सुन ।

(२) मूल में बातों ने उन से कृच किया ।

- इस कारण मैं ठहरा रहा ॥  
पर अब मैं भी कुछ कहूंगा<sup>३</sup> ॥ १७  
मैं भी अपना मत प्रगट करूंगा ॥  
क्योंकि मेरे मन में बातें मरी हैं ॥ १८  
और मेरा आत्मा मुझे उभारता है ॥  
मेरा मन उस दाखमधु के समान है जो खोला न गया हो ॥ १९  
वह नई कुपियों की नई फटा चाहता है ॥  
शान्ति पाने के लिये मैं बोलूंगा ॥ २०  
मैं मुँह खोलकर उत्तर दूंगा ॥  
कहीं मैं किसी का पक्ष न करूँ ॥ २१  
और किसी मनुष्य से ठकुरसाहाती बातें न करूँ ॥  
मैं तो ठकुरसाहाती कहने का जानता भी नहीं ॥ २२  
नहीं तो मेरा सिरजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता ॥

**३३. तीभी** हे अय्युब मेरी बातें सुन और मेरे सब वचनों पर कान लगा ॥

- मैं ने तो अपना मुँह खोला है ॥ १  
और मेरी जीभ मुँह में झुलझुला रही है<sup>४</sup> ॥  
मेरी बातें अपने मन की सिधाई से होंगी ॥ २  
जो शान में रखता हूँ सो खराई के साथ कहूंगा<sup>५</sup> ॥  
मैं ईश्वर के आत्मा का रचा हुआ हूँ ॥ ४  
और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिला है ॥  
यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे ॥ ५  
मेरे साम्हने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा ॥  
देख मैं ईश्वर के लेखे तुझ सा हूँ ॥ ६  
मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ ॥  
सुन तुझे मेरे डर के मारे बहराना न पड़ेगा और न तू मेरे बोझ से दबेगा ॥ ७  
निःसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कान पड़ी और मैं ने तेरे ऐसे वचन सुने हैं कि मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ ॥ ९  
और मुझ में अधर्म नहीं है ॥  
देख वह मुझ से भगड़ने के दाँव बूढ़े दूढ़कर ॥ १०  
मुझे अपना शत्रु गिनता है ॥  
वह मेरे पाँवों को काठ में ठोकता ॥ ११  
और मेरी सारी चाल ताकता रहता है ॥

(३) मूल में अपना अंश उत्तर दूंगा ।

(४) मूल में बोली है । (५) मूल में मेरे हॉठ कहेंगे ।

- १२ सुन इस में तो तू सभा नहीं है  
में मुझे उत्तर देता हूँ  
ईश्वर तो मनुष्य से बड़कर है ॥
- १३ तू उस से क्यों मुकहमा लका है  
कि वह तो अपनी किसी बात का लोखा नहीं  
देता ॥
- १४ ईश्वर तो एक क्या बरन दो प्रकार से भी बातें  
करता है  
पर लोग उस पर चिन्त नहीं लगाते ॥
- १५ स्वप्न में वा रात को दिये हुए दर्शन में  
जब मनुष्य भारी नींद में पड़े रहते हैं  
वा बिछौने पर ऊँघते हैं
- १६ तब वह मनुष्यों के कान खोलता  
और उन की शिक्षा पर छाप लगाता है
- १७ जिस से वह मनुष्य को उस के काम से रोके  
और पुरुष में गर्भ न अंकुरने पाए<sup>१</sup> ॥
- १८ वह उस को कबर में पड़ने नहीं देता  
और उस का जीवन हथियार से खाने नहीं देता ॥
- १९ यह ताड़ना किसी की होती है कि  
वह बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है  
और उस की हड्डी हड्डी में लगातार गड़बड़  
होता है
- २० यहाँ तक कि उस का जीव रोटी से  
और उस का मन स्वादिष्ट भोजन से घिन खाता है ॥
- २१ उस की देह यहाँ लों गल जाती कि वह देखी  
नहीं जाती  
और उस की हड्डियाँ जो पहिले दिखाई न देती थीं  
सो निकली देख पड़ती हैं<sup>२</sup> ॥
- २२ निदान वह कबर के निकट पहुँचता  
और उस का जीवन नाश करनेहारों के बश में  
हो जाता है ॥
- २३ यदि उस के लिये कोई बिचवई दूत मिले जो  
हजार में से एक ही हो  
और मनुष्य को सिधार्ई बता सके
- २४ तो ईश्वर उस पर अनुग्रह करके कहेगा  
उसे बचाकर कबर में न पड़ने दे  
मुझे छुड़ौती मिली है ॥
- २५ उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक ताजी  
हो जाएगी ॥  
उस की जबानी के दिन फिर आएंगे ॥

(१) मूल में और पुरुष से गर्भ छिपाए । (२) वा उस के अंग सूखते  
सूखते मानी अनदेखे हो जाती हैं ।

- वह ईश्वर से भिन्ती करेगा और वह उस से २६  
प्रसन्न होगा  
सो वह आनन्द करके ईश्वर का दर्शन करेगा  
और ईश्वर मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी  
कर देता है ॥
- वह मनुष्यों के साम्हने गाकर कहता है कि २७  
में ने पाप किया और सीधे को टेढ़ा कर दिया था  
पर उस का बदला मुझे दिया नहीं गया ॥  
उस ने मेरा जीव कबर में पड़ने से बचाया है २८  
सो मैं उजियाले को देखूंगा ॥  
सुन ऐसे ऐसे के सब काम २९  
ईश्वर पुरुष के साथ दो बार क्या बरन तीन बार  
भी करता है ॥  
जिस से उस को कबर से बचाए<sup>४</sup> ३०  
और वह जीवनलोक के उजियाले का प्रकाश पाए ॥  
हे अय्युव कान लगाकर मेरी सुन ३१  
चुप रह मैं बोलता रहूँ ॥  
यदि तुझे बात कहनी हो तो मुझे उत्तर दे ३२  
कह दे क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूँ ॥  
नहीं तो तू मेरी सुन ३३  
चुप रह मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा ॥  
(एलीहू का वचन)

### ३४. फिर एलीहू यों भी कहता गया हे बुद्धिमानो मेरी बातें सुनो २

- और हे शानियो मेरी बातों पर कान लगाओ ॥  
क्योंकि जैसे जीभ से<sup>१</sup> चखा जाता है ३  
वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं ॥  
हम न्याय की बात सुन लें ४  
और मिलाकर भली बात बूझ लें ॥  
अय्युव ने कहा है कि मैं निर्दोष हूँ ५  
पर ईश्वर ने मेरा न्याय बिगाड़ दिया है ॥  
मैं सच्चाई पर हूँ तौमी झूठा ठहरता हूँ ६  
मैं निरपराध हूँ पर मेरा आव<sup>६</sup> असाध्य है  
अय्युव के तुल्य कौन पुरुष है ७  
जो ईश्वर को निन्दा पानी की नाई पीता है  
जो अनर्थ करनेहारों का साथ देता ८  
और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है ॥  
उस ने तो कहा है कि मनुष्य को इस से कुछ लाभ ९  
नहीं

(३) मूल में मेरा जीवन । (४) मूल में फेर लाए ।  
(५) मूल में तालू से । (६) मूल में तीर ।

- १० कि वह भ्रानन्द से परमेश्वर की संगति रखे ॥  
इसलिये हे समझवाली मेरी सुनो कि  
दुष्ट काम करना यह ईश्वर से दूर रहे  
और सर्वशक्तिमान से यह दूर हो कि टेढ़ा काम  
करे ॥
- ११ वह मनुष्य की करनी का बदला देता  
और एक एक को अपनी अपनी चाल का फल  
भुगवाता है ॥
- १२ निःसन्देह ईश्वर दुष्टता नहीं करता  
और न सर्वशक्तिमान न्याय बिगाड़ता है ॥
- १३ किस ने पृथिवी को उस के हाथ सौंपा  
वा किस ने सारे जगत का प्रबन्ध किया ॥
- १४ यदि उस का ध्यान अपनी ही ओर हो  
और वह अपना आत्मा और हाँस अपने ही में  
समेट ले
- १५ तो सब देहधारी एक संग नाश होंगे  
और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा ॥
- १६ सो इस को सुनकर समझ रख  
और मेरी इन बातों पर कान लगा ॥
- १७ जो न्याय का बैरी हो क्या वह शासन करे  
जो पूर्ण धर्मी है क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा ॥
- १८ क्या किसी राजा से ऐसा कहना उचित है कि तू  
ओछा है  
वा प्रधानों से कि तुम दुष्ट हो ॥
- १९ ईश्वर तो हाकिमों का पक्ष नहीं करता  
और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाये  
हुए जानकर  
उन में कुछ भेद नहीं करता
- २० आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं  
और प्रजा के लोग लड़खड़ाकर जाते रहते हैं  
और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाये उठा लिये  
जाते हैं ॥
- २१ क्योंकि ईश्वर की आँखें मनुष्य की चाल चलन  
पर लगी रहतीं  
और वह उस के पग पग को देखता रहता है ॥
- २२ ऐसा अभियारा वा धोरे अभिकार नहीं है  
जिस में अनर्थ करनेहारे छिप सकें ॥
- २३ क्योंकि उस को मनुष्य पर चित्त लगाने का कुछ  
प्रयोजन नहीं  
सो मनुष्य उस के साथ क्यों मुकहमा लड़े ॥
- २४ वह बड़े बड़े बलवानों को पूछपाछ के बिना चूर  
चूर करता

- और उन के स्थान पर औरों को लड़ा कर देता है ॥  
सो वह उन के कामों को भली भाँति जानता है २५  
वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता कि वे चूर चूर हो  
जाते हैं ॥
- वह उन्हें दुष्ट जानकर २६  
सभों के देखते मारता है ॥  
क्योंकि उन्होंने ने उस के पीछे चलना छोड़ दिया २७  
और उस के किसी मार्ग पर चित्त न लगाया ॥  
सो उन के कारण कंगालों की दोहाई उस तक २८  
पहुँची  
और दीन लोगों की दोहाई उस को सुन पड़ी ॥  
जब वह चैन देता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है २९  
और जब वह मुँह फेर लेता तब कौन उस का दर्शन  
पा सकता है  
जाति भर और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उस  
का यही नियम है  
जिस से भक्तिहीन राज्य करता न रहे ३०  
और प्रजा फँसाई न जाए ॥  
क्या किसी ने कभी ईश्वर से कहा कि ३१  
मैं ने दरुड सहा मैं आगे की बुराई न करूँगा  
जो कुछ मुझे नहीं सूझ पड़ता सो तू मुझे दिखा दे ३२  
और यदि मैं ने टेढ़ा काम किया हो तो आगे को  
वैसा न करूँगा ॥  
क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला दे ३३  
तू तो उस से अप्रसन्न है  
सो मुझे नहीं तुम्ही को चुनना होगा  
इस कारण जो तुम्हे समझ पड़ता है सो कह दे ॥  
सब शानी पुरुष ३४  
बरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं सो मुझ से  
कहेंगे कि  
अय्युव शान की बातें नहीं कहता ३५  
और न उस के वचन समझ के साथ होते हैं ॥  
भला होता कि अय्युव अन्त लों परीक्षा में रहता ३६  
क्योंकि उस ने अनर्थियों के से उत्तर दिये हैं ॥  
और वह अपने पाप में विरोध बढ़ाता ३७  
और हमारे बीच ताली बजाता  
और ईश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है ॥  
(प्लीह की बाणी)
३५. फिर प्लीह यों भी कहता गया कि  
क्या तू इसे अपना हक समझता है २  
क्या तू कहता है मेरा धर्म ईश्वर के धर्म से  
अधिक है

- ३ कि तू कहता है कि मुझे क्या लाभ  
अपने पाप के छूट जाने से क्या लाभ उठाऊंगा ॥  
४ मैं ही तुझे  
और तेरे साधियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ ॥  
५ आकाश की ओर दृष्टि करके देख  
और आकाशमंडल के तारक जो तुझ से ऊंचा है  
६ यदि तू ने पाप किया हो तो ईश्वर का क्या  
बिगड़ता  
चाहे तेरे अपराध बहुत ही हों तौभी तू उस के  
साथ क्या करता ॥  
७ यदि तू धर्मी हो तो उस को क्या लाभ  
और तुझ से उस को क्या मिलता ॥  
८ तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही पुरुष के  
और तेरे धर्म का फल भी तुझ ऐसे ही मनुष्य के  
प्राप्त होता है ॥  
९ बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं  
और बलवान के बाहुबल के कारण वे दोहाई देते  
हैं ॥  
१० पर कोई यह नहीं कहता कि मेरा सिरजनहार  
ईश्वर कहाँ है  
जो रात में भी गीत गवाता है  
११ और हमें पृथिवी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता  
और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धिमान  
करता है ॥  
१२ वे दोहाई देते पर कोई उत्तर नहीं देता  
यह बुरे लोगों के भयमड के कारण होता है ॥  
१३ निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें नहीं सुनता  
आर न सर्वशक्तिमान उन पर चिन्त  
लगाता है ॥  
१४ तू तो कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता पर  
यह मुकद्दमा उस के साम्हने है सो तू उस की बात  
जोहता रह ॥  
१५ पर अभी तो उस ने कोप करके दण्ड नहीं दिया  
और अभिमान पर चिन्त बहुत नहीं लगाया ॥  
१६ इस कारण अध्याय मुंह व्यर्थ खोलकर  
अज्ञानता की बातें बहुत बढ़ाता है ॥  
**३६. फिर** एलीहू यों भी कहता गया  
कुछ ठहरा रह मैं तुझ को  
समझाऊंगा  
क्योंकि ईश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी  
कहना है ॥  
१ मैं अपने ज्ञान की बात बुर से हो आऊंगा

- और अपने सिरजनहार को धर्मी ठहराऊंगा ॥  
निश्चय मेरी बातें झूठी न होंगी  
जो तेरे संग है सो पूरा शानी है ॥  
सुन ईश्वर सामर्थी है पर किसी को तुच्छ नहीं  
जानता  
वह समझने की शक्ति में समर्थ है ॥  
वह दुष्टों को जिलाये नहीं रखता  
और दीनों को उन का हक देता है  
वह धर्मियों से अपनी आँखें नहीं फेरता  
बरन उन को राजाओं के संग सदा के लिये  
सिंहासन पर बैठासता  
और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं ॥  
और चाहे वे सांकलों में जकड़े जाएं  
और दुःखदाई रस्सियों से बांधे जाएं  
तो ईश्वर उन पर उन के काम  
और उन का यह अपराध प्रगट करता है कि  
उन्होंने गर्व किया है ॥  
वह उन के कान शिक्षा सुनने को खोलता  
और उन को अनर्थ काम छोड़ने को कहता है ॥  
यदि वे सुनकर उस की सेवा करें  
तो वे अपने दिन कल्याण से  
और अपने बरस सुख से काटेंगे ॥  
पर यदि वे न सुनें तो वे हथियार से नाश हो जाएंगे  
और उन का प्राण अज्ञानता में छूटेगा ॥  
पर जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते  
और जब वह उन को बांधता है तब भी दोहाई  
नहीं देते  
वे तो जवानी में मर जाते  
और उन का जीवन लुब्धों का सा नाश होता है ॥  
वह दुष्टियों को उन के दुःख ही के द्वारा हूडाता  
और उपद्रव ही के द्वारा उन का कान खोलता है ॥  
वह तुझ को भी लुभाकर क्लेश के मुह में से  
निकालता  
और ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है  
पहुँचाता  
और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर लगाता  
है ॥  
पर तू ने दुष्टों का सा निर्याय किया है  
निर्याय और न्याय तुझ से लिपटे रहते हैं ॥

(१) मूल में और तेरी मेज की उतराई चिकनाई से भरी ।  
(२) मूल में दुष्ट के निर्याय से भर गया ।

- १८ देख तू जलजलाहट से उभरके उठ्ठा मत कर और  
न प्रायश्चित्त को अधिक बढ़ा जानकर मार्ग से  
मुड़ जा ॥
- १९ क्या तू चिल्लाने ही के कारण  
वा बढ़ा बल करके क्रेश से छूट जाएगा ॥
- २० उस रात की अभिलाषा न कर  
जिस में देश देश के लोग अपने अपने स्थान से  
मिट जाएंगी ॥
- २१ चौकस रह अनर्थ काम की ओर मत फिर  
तू ने तो दुःख<sup>१</sup> से अधिक इसी को चाहा है
- २२ सुन ईश्वर अपने सामर्थ्य से ऊंचे ऊंचे काम  
करता है  
उस के समान सिखानेहारा कौन है ॥
- २३ किस ने उस के चलने का मार्ग ठहराया है  
और कौन उस से कह सकता है कि तू ने टेढ़ा  
काम किया है ॥
- २४ उस की करनी की महिमा करने को स्मरण रख  
जिस का गीत मनुष्यों ने गाया है ॥
- २५ सब मनुष्य उस को ध्यान से देखते आये हैं  
और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है ॥
- २६ सुन ईश्वर महान् और हमारे ज्ञान से परे है  
और उस के बरसों की गिनती अनन्त है ॥
- २७ वह तो जल की बूंदें खींच लेता है  
वे कुहरे के साथ मेंह होकर गिरती हैं ॥
- २८ वे ऊंचे ऊंचे बादलों से पड़ती हैं  
और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसती हैं ॥
- २९ फिर क्या कोई बादलों का फैलना  
और उस के मंडल में का गरजना समझ सकता  
है ॥
- ३० देख वह अपने सामूहने उजियाला फैलाता  
और समुद्र की याह को<sup>२</sup> दांपता है ॥
- ३१ इस प्रकार से वह देश देश के लोगों का न्याय  
करता  
और भोजनवस्तुएं बहुतायत से देता है ॥
- ३२ वह बिजली को दोनों हाथ में भरके<sup>३</sup>  
उसे निशाने में लगने की<sup>४</sup> आज्ञा देता है ॥  
उस की कड़क से उस का समाचार मिलता है  
दोर भी प्रगट करते हैं कि वह चढ़ा आता है ॥

### ३७. फिर इस पर मेरा हृदय धर- धराता

- और अपने ठिकाने नहीं रहता ॥  
उस के बोलने का शब्द २  
और जो शब्द उस के मुंह से निकलता है उस को  
सुनो ॥  
वह उस को सारे आकाश के तहो ३  
और अपनी बिजली पृथिवी की छोर लो  
मेजता है ॥  
उस के पीछे गरजने का शब्द होता है ४  
वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है  
और जब वह अपना शब्द सुनाता तब बिजली  
लगातार चमकने लगती है<sup>५</sup> ॥  
ईश्वर गरजकर अपना शब्द अद्भुत रीति से ५  
सुनाता है  
और बड़े बड़े काम करता है जिन को हम नहीं  
समझते ॥  
वह तो हिम से कहता है पृथिवी पर गिर और ६  
मेंह को और भारी वर्षा को भी  
ऐसी ही आज्ञा देता है ॥  
वह सब मनुष्यों का काम<sup>७</sup> बन्द कर देता है ७  
जिस से उस के बनाये हुए सब मनुष्य उस को  
पहचाने ॥  
तब वनपशु आड में जाते ८  
और अपनी अपनी मान्दों में रहते हैं ॥  
दक्खिन दिशा से<sup>८</sup> बबन्डर ९  
और उतरहिया से<sup>९</sup> जाड़ा आता है ॥  
ईश्वर की सांस की फूंक बरफ पड़ता है १०  
तब जलाशयों का पाट जम जाता है ॥  
फिर वह घटाओं को भाफ से लादता ११  
और अपना बिजली से भरे हुए उजियाले का  
बादल फैलाता है ॥  
और वह उस की बुद्धि की युक्ति से घुमाये हुए १२  
फिरता है  
इसलिये कि जो जो आज्ञा वह उन को दे  
सोई वे बसाई हुई पृथिवी के ऊपर पूरी करें ॥

(१) वा दीपता । (२) मूल में जड़ को ।

(३) मूल में दोनों हाथ उजियाले से ढांपकर ।

(४) मूल में निशाना मारनेहारे को नाईं ।

(५) मूल में अपने उजियाले ।

(६) मूल में तब उन्हें नहीं रोकता ।

(७) मूल में हाथ ।

(८) मूल में कीठरी से । (९) मूल में बिखेरनेहारों से ।

- १३ चाहे ताड़ना देना चाहे अपनी पृथिवी की भलाई करना चाहे  
मनुष्यों पर कल्याण करने के लिये वह उस को ले आता है ॥
- १४ हे अव्युब इस पर कान लगा  
खड़ा रह और ईश्वर के आश्चर्यकर्मों का विचार कर ॥
- १५ क्या तू जानता है कि ईश्वर क्योंकर अपने बादलों को आशा देता  
और अपने बादल की बिजली चमकाता है ॥
- १६ क्या तू घटाओं का तौलना  
वा सर्वज्ञानी के आश्चर्यकर्म जानता है ॥
- १७ जब पृथिवी पर दक्खिन ही के कारण सब कुछ  
सुपचाप रहता है<sup>१</sup>  
तब तो तेरे बरु तुझे गर्म लगते हैं ॥
- १८ फिर क्या तू उस का संगी होकर उस आकाश-  
मण्डल को तान सकता है  
जो दाते हुए दर्पण के तुल्य पोढ़ है ॥
- १९ तू हमें यह सिखा कि उस से क्या कहना चाहिये  
हम तो अंधियारे के मारे अपने वचन ठीक नहीं  
रच सकते ॥
- २० क्या उस को बताया जाए कि मैं बोलने चाहता हूँ  
क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है ॥
- २१ अभी तो आकाशमण्डल में का बड़ा प्रकाश  
देखा नहीं जाता  
पर वायु चलकर उस को शुद्ध करता है ॥
- २२ उत्तर दिशा से सीने की सी ज्योति आती है  
ईश्वर कैसे ही भययोग्य तेज से आभूषित है ॥
- २३ सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिस का  
मेद हम से पाया नहीं जाता  
सो न्याय और पूर्ण धर्म को नहीं बिगाड़ने<sup>२</sup> का ॥
- २४ इसी से सज्जन उस का भय मानते हैं और जो  
अपने लेखे बुद्धिमान हैं उन पर वह दृष्टि नहीं  
करता ॥

(यहोवा और अव्युब का संवाद)

**३८. तब यहोवा अव्युब से आंधी  
में से कहने लगा**

- २ वह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर  
युक्ति को बिगाड़ना चाहता है<sup>३</sup> ॥

- पुरुष की नाई अपनी कमर बांध  
मैं तुझ से प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता दे ॥ ३
- जब मैं ने पृथिवी की नेव डाली तब तू कहा था  
यदि तू समझदार हो तो बता दे ॥ ४
- उस की नाप किस ने ठहराई क्या तू जानता है  
उस पर किस ने डोरी डाली ॥ ५
- उस की कुर्तियाँ कौन सी वस्तु पर रक्खी गई<sup>४</sup>  
किस ने उस के कौने का पत्थर बिठाया ॥ ६
- जब कि भोर के तारे एक संग आनन्द से गाने  
और परमेश्वर के सब पुत्र जयजयकार करने लगे ॥ ७
- फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्म  
से फूट निकला  
तब किस ने द्वार मून्द कर उस को रोक दिया  
जब कि मैं ने उस को बादल पहिराया ॥ ९
- और भोर अंधकार में लपेट दिया  
और उस के लिये सिवाना बांधा<sup>५</sup> ॥ १०
- और यह कहकर बँड़े और किवाड़े लगा दिये कि  
यहीं तक आ और आगे न बढ़ ॥ ११
- और तेरी उमड़नेहारी लहवें यहीं थम जाएं ॥  
क्या तू ने जीवन भर में कभी भोर को आशा दी ॥ १२
- और पह को उस का स्थान जताया है  
कि वह पृथिवी की छोरों को उठाकर ॥ १३
- दुष्ट लोगों को उस पर से भाड़ दे ॥  
वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर की छाप के नीचे ॥ १४
- मिट्टी बदलती है  
और सब वस्तुएं मानो बरु पहिने हुए दिखाई  
देती हैं<sup>६</sup>
- और दुष्टों का उजियाळा<sup>७</sup> उन पर से उठ लिया ॥ १५
- जाता है  
और उन की बढाई हुई बांह तोड़ी जाती है ॥  
क्या तू कभी समुद्र के स्रोतों तक पहुँचा है ॥ १६
- वा गहिरे सागर की याह में कभी चला फिरा है ॥  
क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रगट हुए ॥ १७
- क्या तू और अंधकार के फाटकों को कभी देखने  
पाया है ॥  
क्या तू ने पृथिवी का पाट पूरी रीति से समझ ॥ १८
- लिया  
जो तू यह सब जानता हो तो बतला दे ॥  
उजियालो के निवास का मार्ग कहाँ है ॥ १९

(१) मूल में जब पृथिवी दक्खिन ही से सुपचाप होती है ।

(२) मूल में दबाने । (३) मूल में अंधेरा कर देता है ।

(४) मूल में बैठाई गई । (५) मूल में तोड़ा ।

(६) मूल में खड़ी हो जाती है । (७) अर्थात् अंधियारा ।



- और अधियारे का स्थान कहाँ है ॥  
 २० क्या तू उसे उस के सिवाने तक हटा सकता  
 और उस के घर की डगर पहिचान सकता है ॥  
 २१ निःसन्देह तू यह सब कुछ जानता होगा  
 क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था  
 और तू बहुत दिनी होगा ॥  
 २२ फिर क्या तू कमी हिम के भण्डार में पैठा  
 वा कमी झीलों के भण्डार को देखा है  
 २३ जिस को मैं ने संकट के समय  
 और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिये रख  
 छोड़ा है ॥  
 २४ किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता  
 और पुरवाई पृथिवी पर बहाई<sup>१</sup> जाती है ॥  
 २५ महाबुद्धि के लिये किस ने नाला काटा  
 और कड़कनेहारी बिजली के लिये मार्ग बनाया है  
 २६ कि निर्जन देश में  
 और जंगल में जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता पानी  
 बरसा कर  
 २७ उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे  
 और हरी घास उगाए ॥  
 २८ क्या मेंह का कोई पिता है  
 और ओस की बूँदें किस ने जन्माई ॥  
 २९ किस के गर्भ से बरफ निकला  
 और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन जनी ॥  
 ३० जल पत्थर के समान जम<sup>२</sup> जाता है  
 और गहिरे पानी के ऊपर जमावट होती है ॥  
 ३१ क्या तू कचपत्थिया का गुच्छा गंथ सकता  
 वा मृगशिरा के बंधन खोल सकता है ॥  
 ३२ क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर  
 सकता<sup>३</sup>  
 वा सप्तर्षि को साथियों समेत लिये चल सकता है ॥  
 ३३ क्या तू आकाशमण्डल की विधियां जानता  
 और पृथिवी पर उन का अधिकार ठहरा सकता  
 है ॥  
 ३४ क्या तू बादलों को अपनी वाणी सुनाए<sup>४</sup>  
 कि बहुत जल तुझ पर बरसे ॥  
 ३५ क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है<sup>५</sup>  
 कि वह निकलकर कहे क्या आज्ञा ॥  
 ३६ किस ने अन्तःकरण में<sup>६</sup> बुद्धि उपजाई

- और मन में<sup>७</sup> समझने की शक्ति किस ने दी है ॥  
 कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता ३७  
 और आकाश के कुम्पों को<sup>८</sup> उगडेल सकता  
 जब धूलि जम जाती ३८  
 और डेले एक दूसरे से सट जाते हैं ॥  
 क्या तू सिंहनी के लिये अहेर पकड़ सकता और ३९  
 जवान सिंहों का पेट भर सकता है ॥  
 वे माँद में बैठते ४०  
 और आड़ में घात लगाये दबकर रहते हैं ॥  
 फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की दोहाई देते हुए ४१  
 निराहार उड़ते फिरते हैं  
 तब उन को आहार कौन देता है ॥

### ३६. क्या तू दांग पर की बनैली बकरियों के जनने का

- समय जानता है  
 जब हरिणिया बियाती हैं तब क्या तू देखता रहता  
 है ॥  
 क्या तू उन के महीने गिन सकता २  
 क्या तू उन के बियाने का समय जानता है ॥  
 वे बैठकर अपने बच्चों को जनती ३  
 वे अपनी पीढ़ों से छूट जाती हैं ॥  
 उन के बच्चे हृष्टपुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते ४  
 वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते ॥  
 किस ने बनैले गदहे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है ५  
 किस ने उस के बंधन खोले हैं ॥  
 उस का घर मैं ने निर्जल देश को ६  
 और उस का निवास लोनिया भूमि को ठहराया  
 है ॥  
 वह नगर के कोलाहल पर हंसता ७  
 और हांकनेहारे की हांक सुनता भी नहीं ॥  
 पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है सोई वह चरता ८  
 वह सब भाँति की हरियाली दूँढ़ता फिरता है ॥  
 क्या बनैला बैल तेरा काम करने को प्रसन्न होगा ९  
 क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा ॥  
 क्या तू बनैले बैल को रस्से से बांधकर रेधारियों में १०  
 चलाएगा  
 क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे होगा फेरगा ॥  
 क्या तू इस कारण उस पर भरोसा रखेगा कि उस ११  
 का बल बड़ा है

(१) मूल में छितराई । (२) मूल में छिप । (३) मूल में निकाल  
 सकता । (४) मूल में उठाए । (५) मूल में भेज सकता है ।  
 (६) मूल में शुद्धों में ।

(७) वा कुक्कट में । (८) अर्थात् बादलों की ।

- वा जो परिश्रम का काम तेरा हो क्या तू उसे  
उस पर छोड़ेगा ॥
- १२ क्या तू उस का विश्वास करेगा कि यह मेरा  
अनाज घर ले आएगा  
और मेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा कर लाएगा ॥
- १३ फिर शूतुरमुर्गी अपने पंखों को आनन्द से  
फुलाती है  
पर क्या ये पंख और पर स्नेह के काम आते हैं ॥
- १४ वह तो अपने अंडे भूमि में देती  
और धूलि में उन्हें गर्म करती है
- १५ और इस की सुधि नहीं रखती कि ये पांव से दब  
जायंगे
- १६ वा कोई वनपशु इन्हें कुचल डालेगा ॥  
वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि  
मानो उस के नहीं हैं  
यद्यपि उस का कष्ट अकारण होता है तौ भी वह  
निश्चिन्त रहती है ॥
- १७ क्योंकि ईश्वर ने उस को बुद्धिरहित बनाया ?  
और उसे समझने की शक्ति बांट नहीं दी ॥
- १८ जिस समय वह उभरके अपने पंख फैलाती  
तब चौड़े और उस के सवार दोनों की हंसी  
करती है ॥
- १९ क्या तू घोड़े को उस का बल देता  
वा उस की गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाता है ॥
- २० क्या उस को टिड्डी की सी उछलने की शक्ति तू  
देता है  
उस के फुरकने का शब्द डरावना होता है ॥
- २१ वह तराई में टापता और अपने बल से हर्षित  
रहता है  
वह हथियारबन्दों का साम्हना करने को पयान  
करता है ॥
- २२ वह डर की बात पर हंस्ता और नहीं घबराता  
और तलवार से पीछे नहीं हटता ॥
- २३ तर्कश और चमकता हुआ सांग और भाला  
उस पर हड़हड़ाती है ॥
- २४ वह रिस और क्रीध के मारे भूमि को निगलता है  
जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता तब उस से  
खड़ा नहीं रहा जाता ॥
- २५ जब जब नरसिंगा बजता तब तब वह आहा कहता है  
और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय-  
जयकार

(१) मूल में उस से इत्थि भुलाई ।

- दूर से मानों सूंघ लेता है ॥  
क्या तेरे समझने से बाज उड़ता २६  
और दक्खिन की ओर उड़ने को अपने पंख  
फैलाता है ॥  
क्या उकाव तेरी आज्ञा से चढ जाता २७  
और ऊंचे स्थान पर अपना बौसला बनाता है ॥  
वह ढांग पर रहता २८  
और चटान की चोटी और इटस्थान पर बसेरा  
करता है ॥  
वह अपनी आंखों से दूर तक देखता २९  
वहां से वह अपने अहेर की ताक लगाता है ॥  
उस के बच्चे लोह पीते हैं ३०  
और जहां घात किये हुए लोग होते वहां वह  
होता है ॥

४०. फिर यहोवा ने अय्युब से यह भी  
कहा कि

- क्या सुभारनेहारा सर्वशक्तिमान से मुकहमा लड़े २  
जो ईश्वर से विवाद करना चाहे सो इस का  
उत्तर दे ॥  
तब अय्युब ने यहोवा को उत्तर दिया ३  
देख मैं तो तुच्छ हूं मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं ४  
सो अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूं ५  
एक बार तो मैं कह चुका पर और कुछ न कहूंगा ५  
हां दो बार भी मैं कह चुका पर अब कुछ और  
न कहूंगा ॥  
तब यहोवा अय्युब से आधी में से यह भी कहने ६  
लगा  
पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ७  
मैं तुम्हें से प्रश्न करता हूं तू मुझे सिखा दे ॥  
क्या तू मेरा न्याय भी बिगाड़ेगा ८  
क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझ को  
भी दोषी ठहराएगा ॥  
क्या तेरा बाहुबल ईश्वर का सा है ९  
क्या तू मेरा सा शब्द करके गरज सकता है ॥  
अपने को महिमा और प्रताप से संवार १०  
और ऐश्वर्य्य और तेज के बख पहिन ले ॥  
अपना सारा कोप भड़काकर प्रगट कर ११  
और एक एक घर्मंडी को देखते ही नीचा कर ॥  
हर एक घर्मंडी को देखकर भुका दे और १२  
दुष्ट लोगों को जहां के तहां गिरा दे ॥

(२) मूल में अपना हाथ अपने मुंह पर रक्खूंगा ।

- उन को एक संग मिट्टी में मिला<sup>१</sup> दे  
और अधोलोक<sup>२</sup> में उन के मुँह बांध रखें ॥
- १४ तब मैं भी मान लूंगा  
कि तू अपने ही दहने हाथ से अपना उद्धार कर  
सकता है ॥
- १५ उस जलजल को देख जिस को मैं ने तेरे साथ  
बनाया है  
वह बैल की नाई पास खाता है ॥
- १६ देख उस की कमर में कैसा ही बल  
और उस के पेट की नली में कितना ही सामर्थ्य  
रहता है ॥
- १७ वह अपनी पूँछ को देवदार की नाई हिलाता  
उस की जाँघों की नसें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ।
- १८ उस की हड्डियाँ मानो पीतल की नलियाँ  
उस की पसलियाँ मानो लोहे के बेंड़े हैं ॥
- १९ वह ईश्वर का मुख्य कार्य<sup>३</sup> है  
जो उस का सिरजनहार है सोई उस की तलवार  
दे देता है ॥
- २० उस का चारा पहाड़ों पर मिलता है  
जहाँ और सब बनैले पशु कसौल करते हैं ॥
- २१ वह छतनार बृच्चों के तले  
नरकटों की आड़ में और कीच पर लोटा करता है ॥
- २२ छतनार बृच्च उस पर छाया करते हैं  
वह नाले के मजनु बृच्चों से घिरा रहता है ॥
- २३ चाहे नदी की बाढ़ भी हो तौभी वह न घबराएगा  
चाहे यदैन भी बढ़कर उस के मुँह तक आए पर  
वह निडर रहेगा ॥
- २४ जब वह देखता भालता रहे तब<sup>४</sup> क्या कोई उस  
को पकड़ सकेगा  
वा फँदे लगाकर उस को नाथ सकेगा ॥
- ४९. फिर** क्या तू लिव्यातान को बंसी  
के द्वारा खींच सकता  
वा होरी से उस की जीभ दबा सकता है ॥
- २ क्या तू उस की नाक में नकैल लगा सकता  
वा उस का जमड़ा कील से बेध सकता है ॥
- ३ क्या वह तुझ से बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा वा  
तुझ से मीठी मीठी बातें बोलेगा ॥

- क्या वह तुझ से वाचा बाँचेगा ४  
कि मैं सदा तेरा दास रहूँगा ॥
- क्या तू उस से ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से ५  
वा अपनी लड़कियों का भी बहलाने को उसे बाध  
रक्खेगा ॥
- क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे ६  
वा उसे व्योपारियों में बाँट देंगे ॥
- क्या तू उस का चमड़ा आंकड़ीवाले कांटों से ७  
वा उस का सिर मछुबे के शूलों से मर सकता है ॥
- तू उस पर अपना हाथ भी धरे ८  
तो लड़ाई तू कभी न भूलेगा<sup>५</sup> और आगे को  
कभी ऐसा न करेगा ॥
- मुन उसे पकने की आशा निष्फल रहती है ९  
उस के देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है ॥
- कोई ऐसा साहसी<sup>६</sup> नहीं जो उस को मढ़काए १०  
फिर ऐसा कौन है जो मेरे साम्हने ठहर सके ॥
- किस ने मुझे पहिले दिया है जिस का बदला मुझ ११  
देना पड़े
- देख सारी धरती पर<sup>७</sup> जो कुछ है सो मेरा है ॥  
मैं उस के अंगों के विषय १२  
और उस के बड़े बल और उस की बनावट की  
शोभा के विषय चुप न रहूँगा ॥
- उस के आगे के पहिरावे को कौन उतार सकता १३  
उस के दाँतों की दोनों पातियों<sup>८</sup> के बीच कौन  
पेठेगा ॥
- उस के मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता १४  
उस के दाँत चारों ओर डरावने हैं ॥
- उस के छिलकों<sup>९</sup> की रेखाएँ घर्मड का कारण हैं १५  
वे मानो कड़ी छाप से बन्द किये हुए हैं ॥
- वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं १६  
कि उन के बीच कुछ वायु भी नहीं पैठ सकती ॥
- वे आपस में मिले हुए १७  
और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते ॥
- फिर उस के छींकने से उजियाला चमक जाता १८  
और उस की आँखें ओर की पलकों के समान हैं ॥
- उस के मुँह से जलते हुए पल्लिते निकलते १९  
और आग की चिंगारियाँ छूटती हैं ॥

(१) मूल में छिपा । (२) मूल में गुप्त ।

(३) मूल में मार्गों का पहिला है ।

(४) मूल में उस की आँखों में ।

(५) मूल में तू स्मरण रख । (६) मूल में क्रूर ।

(७) मूल में सारे आकारों के तले ।

(८) मूल में दुहरे बाग ।

(९) मूल में उस की टालों के नाले ।

- २० उस के नथुनों से धुआँ ऐसा निकलता  
जैसा खौलती हुई हाँकी और जलते हुए नरकटों से ॥
- २१ उस की सांस से कोयले सुलगते  
और उस के मुँह से आग की लौ निकलती है ॥
- २२ उस की गर्दन में सामर्थ्य बना रहता है  
और उस के साम्हने निराशी छा जाती है<sup>१</sup> ॥
- २३ उस के मांस पर मांस चढ़ा हुआ है  
और ऐसा पोढ़ है जो हिलने का नहीं ॥
- २४ उस का हृदय पत्थर सा पोढ़ है  
बरन चक्की के निचले पाट के समान पोढ़ है ॥
- २५ जब वह उठने लगता तब सामर्थी भी डर जाते  
और डर के मारे उन की सुष बुध जाती  
रहती है ॥
- २६ यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उस से  
कुछ न बन पड़ेगा<sup>२</sup>  
और न बछे न बछीं न तीर से ॥
- २७ वह लोहे की पुआल सा  
और पीतल की सड़ी लकड़ी सा जानता है ॥
- २८ वह तीर<sup>३</sup> से भगाया नहीं जाता  
गोफन के पत्थर उस के लेखे भूसे से ठहरते हैं ॥
- २९ लाठियाँ भी भूसे के समान गिनी जाती हैं  
वह बछीं की हड़हड़ाहट पर हँसता है ॥
- ३० उस के निचले भाग पैसे पैसे ढीकरे से हैं  
कीच पर मानो वह हँगा फेरता है ॥
- ३१ वह गहरे जल को हँडे की नाई मथता है  
उस के कारण नील नदी<sup>४</sup> मरहम की हाँकी के  
समान होती है ॥
- ३२ उस के पीछे लीक चमकती है  
मानो गहिरा जल पकड़े बालवाला हो जाता है ॥
- ३३ धरती पर उस के तुल्य और कोई नहीं है  
वह ऐसा बनाया गया है कि उस को कुछ भय  
न लगे ॥
- ३४ जो कुछ ऊँचा है उसे वह ताकता ही रहता  
वह सब धर्मियों के ऊपर राजा है ॥  
(अय्युब का वचन)
४२. तब अय्युब ने यहोवा से कहा  
मैं जान गया कि तू सब कुछ कर  
सकता है  
और तेरी युक्तियों में से कोई नहीं रकने की ॥

(१) मूल में नाचती है ।

(२) मूल में खड़ी न होगी ।

(३) मूल में मनुष्य के पुत्र । (४) मूल में समुद्र ।

तू कौन है जो ज्ञानरहित होकर युक्ति को किगाड़ने<sup>३</sup>  
चाहता है<sup>४</sup>

मैं तो जो नहीं समझता था उसे बोला  
अर्थात् जो बातें मेरे लिये अधिक कठिन और मेरी  
समझ से बाहर थीं ॥

सुन मैं कुछ कहूँगा

मैं तुझ से प्रश्न करता हूँ तू मुझे सिखा दे ॥

मैं ने सुनी सुनाई तो तेरे विषय सुनी थी

पर अब अपनी आँख से तुझे देखता हूँ ॥

इस लिये मैं अपनी बातों को तुझ जानता

और धूलि और राख में पश्चात्ताप करता हूँ ॥

(अय्युब का घोर परीक्षा से बूटना)

जब यहोवा ये बातें अय्युब से कह चुका तब उस ने

तेमानी एलीपज से कहा मेरा कोप तेरे और तेरे दोनों

मित्रों पर भड़का है क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्युब

ने मेरे विषय कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही । सो

अब तुम सात बैल और सात मेढ़े छांट मेरे दास अय्युब

के पास जाकर अपने निमित्त होमबलि चढ़ाओ तब मेरा

दास अय्युब तुम्हारे लिये प्रार्थना करेगा क्योंकि उसी की

मैं ग्रहण करूँगा और नहीं तो मैं तुम से तुम्हारी मूढ़ता

के योग्य बर्ताव करूँगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय

मेरे दास अय्युब की सी ठीक बात नहीं कही । यह सुन

तेमानी एलीपज शूही विल्दद और नामाती सोपर ने

जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा

ने अय्युब की ग्रहण की । जब अय्युब ने अपने मित्रों

के लिये प्रार्थना की तब यहोवा ने उस का सारा दुःख

दूर किया<sup>५</sup> और जितना अय्युब का पहिले था उस का

दुगना यहोवा ने उसे दिया । तब उस के सब भाई और

सब बहिनें और जितने पहिले उस को जानते पहिचानते

थे उन सभी ने आकर उस के यहां उस के संग भोजन

किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी

उस सब के विषय उन्होंने ने विलाप किया और उसे

शांति दी और उसे एक एक कसीता और सोने की एक

एक बाली दी । और यहोवा ने अय्युब के पिछले

दिनों में उस को अगले दिनों से अधिक आशिष दी

और उस के चौदह हजार भेड़ बकरियाँ छः हजार ऊंट

हजार जोड़ी बैल और हजार गदहियाँ हो गईं । और उस

के सात बेटे और तीन बेटियाँ भी उत्पन्न हुईं । इन में से

उस ने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा दूसरी का कसीभा

(५) मूल में अंधेरा कर देता है ।

(६) मूल में उस की बंधुभार्य से लौटा दिया ।

१५ और तीसरी का केरेन्द्रपुक रक्ता । और उस सारे देश में ऐसी जियाँ कहीं न थीं जो अय्युव की बेटियों के समान सुन्दर हों और उन के पिता ने उम को उन के १६ भाइयों के संग ही भाग दिये । इस के पीछे अय्युव एक सौ चालीस बरस जीता रहा और चार पीढ़ी लों अपना

वंश<sup>१</sup> देखने पाया । मिदान अय्युव पुरनिय और १७ दीर्घायु<sup>२</sup> होकर मर गया ।

(१) मूल में बेटे पोते ।

(२) मूल में पुरनिया और दिनों से तृप्त ।

## मञ्जन संहिता ।

### पहिला भाग ।

१. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की मुक्ति पर नहीं चला

और न पापियों के मार्ग में लड़ा हुआ न ठूटा करनेहारों के बैठक में बैठा हो ॥

२ वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है ॥

३ से वह उस पृथ्वी के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो

और अपनी श्रुत में फलता हो और जिस के पक्षे मुरझाने के नहीं

और जो कुछ वह पुरुष करे सो सफल होता है ॥

४ दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते

वे उस भूखी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है ॥

५ इस कारण दुष्ट लोग न्याय में स्थिर न रह सकेंगे

और न पापी धर्मियों की मरहली में उधरेंगे ॥

६ क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग की मुक्ति लेता है

और दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा ॥

२. जाति जाति के लोग हुल्लाह क्यों मचाते और देश देश के लोग

व्यर्थ बात क्यों सोच रहे हैं ॥

२ यहोवा के और उस के अभिषिक्त के विरुद्ध पृथिवी के राजा लड़ते हैं

और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उन के बान्धे हुए बन्धन तोड़ डालें ३

और उन की रस्सियों को फेंक दें ॥

जो स्वर्ग में बिराजमान है सो हंसेगा ४

प्रभु उन को ठुठों में उड़ाएगा ॥

तब वह उन से कोप करके बातें करेगा ५

और क्रोध में आकर उन्हें शबरबाएगा कि

मैं तो अपने उधरिये हुए राजा को

अपने पवित्र पर्वत सिन्धोन [की राजगद्दी] पर बैठा चुका हूँ ॥

मैं उस वचन का प्रचार करूंगा ७

जो यहोवा ने कहा कि तू मेरा पुत्र है

आज मैं ही ने तुझे जन्माया है ॥

मुझ से मार्ग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे भाग में दे दूंगा ८

और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि कर दूंगा ॥

तू उन्हें लोहे के डगड़े से टुकड़े टुकड़े करेगा ९

तू मिट्टी के बर्तन को नार्हे उन्हें चकनाचूर करेगा ॥

सो अब हे राजाओ बुद्धिमान हो १०

हे पृथिवी के न्यायियों यह उपदेश मान लो ॥

यहोवा की सेवा डरते हुए करो ११

और धरधराते हुए मगन हो ॥

पुत्र को चूमो न हो कि वह कोप करे १२

और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ

क्योंकि ख्या भर में उस का कोप भड़केगा

क्या ही धन्य हैं वे सब जो उस के शरणगत हैं ॥

दाऊद का मजून । उस समय का जब वह अपने पुन  
अबशांलूम के साम्हने से भागा जाता था ।

३. हे यहोवा मेरे सतानेहारें क्या ही बढ़  
गये हैं

बहुत से लोग मेरे विरुद्ध उठे हैं ॥

बहुत से लोग मेरे विषय कहते हैं

कि उस का बचाव परमेश्वर से नहीं हो सकता  
सेना ॥

पर हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर ढाल है  
तू मेरी महिमा और मेरे सिर का ऊंचा करने-  
हारों है ॥

मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ  
और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मेरी सुन लेता  
है । सेना ॥

मैं तो लोटा और सो गया

फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मेरा संभालनेहारों है ॥

मैं उन दस दस हजार लोगों से नहीं डरता  
जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाँति बाँचे खड़े हैं ॥

हे यहोवा उठ हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा  
क्योंकि तू मेरे सब शत्रुओं के जमड़ों पर मागता  
और दुष्टों की दाढ़ों को तोड़ डालता आया है ॥  
उद्धार यहोवा ही से होता है

हे यहोवा तेरी आशिष तेरी प्रजा पर हो । सेना ॥  
प्रधान बजानेहारों के लिये । तारवाले बाजों के साथ ।  
दाऊद का मजून ।

४. हे मेरे धर्ममय परमेश्वर जब मैं पुकारूँ  
तब तू मेरी सुन ले

जब मैं सकेती में पड़ा तब तू ने मुझे फैलाव दिया  
मुझ पर अनुग्रह कर मेरी प्रार्थना सुन ॥

हे महापुरुषों मेरी महिमा के बदले कब लों  
अनादर होता रहेगा

तुम कब लों व्यर्थ बात में प्रीति रखोगे और झूठी  
युक्ति विचारते रहोगे । सेना ॥

पर यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने  
लिये अलग कर रखा है

जब मैं यहोवा को पुकारूँ तब वह सुनेगा ॥

मय करो और पाप न करो

अपने अपने बिलौने पर मन ही मन सोचो और  
चुपके रहे । सेना ॥

धर्म के बलिदान चढाओ

और यहोवा पर भरोसा रखो ॥

बहुत से लोग तो कहते हैं कि कौन हम से भलाई  
की भेंट कराएगा

हे यहोवा अपने दुःख का प्रकाश हम पर चमका ॥

उन के अन्न और दाखमधु की बढ़ती के समय  
की अपेक्षा

तू ने मेरे मन में अधिक आनन्द दिया है ।

मैं शान्ति से लोटते ही सो जाऊँगा

क्योंकि हे यहोवा तू मुझ को एकान्त में निडर रहने  
देता है ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । बांसुलियों के साथ ।

दाऊद का मजून ॥

५. हे यहोवा मेरे वचनों पर कान धर  
मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा ॥

हे मेरे राजा हे मेरे परमेश्वर मेरी दोहाई पर ध्यान दे  
क्योंकि मैं तुम्हीं से प्रार्थना करता हूँ ॥

हे यहोवा भोर को मेरा शब्द तुम्हे सुनाई देगा

भोर को मैं तेरे लिये अपनी भेंट सजाकर ताकता रहूँगा ॥

क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो

बुराई तेरे पास टिकने न पाएगी ॥

धर्मही तेरे साम्हने खड़े होने न पाएंगे

तू सब अनर्थकारियों से बैर रखता है ॥

तू झूठ बोलनेहारों को नाश करेगा

हे यहोवा तू हत्यारे और लूटली से घिन खाता है ॥

पर मैं तो तेरी अपार कृपा के कारण तेरे भवन में  
आऊँगा

मैं तेरा मय मानकर तेरे पवित्र मन्दिर की ओर  
दण्डवत् करूँगा ॥

हे यहोवा मेरे श्रोतियों के कारण अपने धर्म के  
मार्ग में मेरी अगुआई कर

मुझे अपना मार्ग सीधा दिखा ॥

क्योंकि उन की बातों का कुछ ठिकाना नहीं

उन के मन में निरी दुष्टता है

उन का गला खुली हुई कबर है

वे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं ॥

हे परमेश्वर उन को दोषी ठहरा

वे अपनी युक्तियों से आप ही गिर जाएँ

उन को बहुत से अपराधों में फँसे हुए धकिया दे

क्योंकि वे तेरे विरुद्ध उठे हैं ॥

पर जितने तेरे शरणागत हैं वे सब आनन्द करें

वे सदा ऊँचे स्वर से गाते रहें और तू उन की आड़ रहे

(१) मूल में परमेश्वर में नहीं है ।

और तेरे नाम के प्रेमी तेरे कारण प्रफुल्लित  
हों ॥  
१२ क्योंकि हे यहीवा तू धर्मी को आशिष देगा  
तू उस को अपनी प्रसन्नारूपी ढाल से घेरे  
रहेगा ॥

अथान बजानेहारों के लिये । तारवाले बाजों के साथ ।  
खर्ज में । दाऊद का भजन ॥

६. हे यहीवा मुझे कोप करके न डाँट न  
जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर ॥

२ हे यहीवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला  
गया हूँ ॥

हे यहीवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियाँ  
खिल गई हैं ॥

३ मेरा जीव भी बहुत थरथरा उठा है  
पर तू हे यहीवा कब लों—

४ हे यहीवा लौटकर मेरा प्राण बचा  
अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर ॥

५ क्योंकि मरने पर तेरा कुछ स्मरण नहीं होता  
अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद कर  
सकता है ॥

६ मैं कराहते कराहते थक गया  
रात रात मेरा बिल्वौना आसुओं से भीज जाता है  
मैं अपनी खाट को उन से भिगोता हूँ ॥

७ मेरी आँखें शोक से धुन्धली हो गईं  
मेरे सब सतानेहारों के कारण वे धुन्धली हो गई हैं ॥

८ हे सब अनधिकारियों मुझ से दूर हो  
क्योंकि यहीवा ने मेरा रोना सुना है ॥

९ यहीवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है ।  
वह मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा ॥

१० मेरे सब शत्रु लजाएंगे और बहुत ही घबराएंगे  
वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे ॥

दाऊद का शिगायोन नाम भजन जो उस ने विन्यामीनी  
कुरा की बातों के कारण यहीवा के साम्हने गाया ।

७. हे मेरे परमेश्वर यहीवा मैं तेरा ही  
शरणागत हूँ

२ मुझे सब खदेड़नेहारों से बचा और लुटकारा दे  
न हो कि वे मुझ को सिंह की नाईं फाड़कर  
टुकड़े टुकड़े करें

और कोई मेरा लुड़ानेहारा न हो ॥

३ हे मेरे परमेश्वर यहीवा यदि मैं ने यह किया हो  
या मेरे हाथों से कुदिल काम हुआ हो

यदि मैं ने अपने मेल रखनेहारों से कुछ व्यवहार  
किया हो

या उस को जो अकारण मेरा सतानेहारा था  
बचाया न हो

तो शत्रु मेरा पीछा करके मुझे पकड़े  
बरन मुझ को भूमि पर रेंदें

और मेरी महिमा को मिट्टी में मिलाएँ । हेला ॥

हे यहीवा कोप करके उठ  
मेरे क्रोधभरे सतानेहारों के विरुद्ध खड़ा हो

और मेरे लिये जाग तू नै न्याय की आज्ञा तो  
दी है ॥

और देश देश के लोगों की मण्डली तेरे चरों  
और आएगी

और तू उन के ऊपर से होकर ऊँचे पर लौट जा ॥

हे यहीवा तू समाज समाज का न्याय करेगा  
मेरे धर्मी और खराई के अनुसार मेरा न्याय  
चुका दे ।

भला हो कि दुष्टों की बुराई का अन्त हो जाए  
पर धर्मी को तू स्थिर कर

क्योंकि तू जो धर्मी परमेश्वर है सो मन और  
मर्म का जांचनेहारा है ॥

मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है  
वह सीधे मनवालों को बचाता है ॥

परमेश्वर धर्मी और न्याय करनेहारा है  
और ऐसा ईश्वर है जो दिन दिन क्रोध करता है ॥

यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर  
सान चढ़ाएगा

वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर पन्धान चका है ॥

और उस मनुष्य के लिये उस ने मृत्यु के हथियार  
तैयार किये हैं

वह अपने तीरों की अभिवाण बनाएगा ॥

देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीढ़ें लगी हैं  
उस को उत्पात का पेट रहा और वह झूठ का  
जानता है ॥

उस ने गड़हा खोदकर गहिरा किया  
पर जो गड़हा उस ने खना उस में बही आप  
गिरा ॥

उस का उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा  
और उस का उपद्रव उसी के चोंचि पर पड़ेगा ॥

मैं यहीवा के धर्मी के अनुसार उस का धन्यवाद  
करूँगा

और परमप्रधान यहीवा के नाम का भजन गाऊँगा ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । गिरीत में । दाऊद का भजन ।

८. हे यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथिवी पर क्या ही प्रतापमय है

तू ने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है ॥

२ तू ने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिउवों के द्वारा<sup>१</sup> सामर्थ्य की नेव डाली है इस लिये कि तू शत्रु और पलटा लेनेहारे को रोक रखे ॥

३ जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों<sup>२</sup> का कार्य्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तू ने ठहराये हैं देखता हूँ

४ तो मनुष्य क्या है कि तू उस का स्मरण करता है और आदमी क्या कि तू उस की सुधि लेता है ॥

५ तू ने उस को परमेश्वर<sup>३</sup> से थोड़ा घटिया बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उस के सिर पर रखवा है ॥

६ तू ने उसे अपने हाथों के काठ्यों पर प्रशुता दी तू ने उस के पाँव तले सब कुछ कर दिया है

७ मेड़ बकरी और गाय बैल सब के सब और जितने वनपशु हैं

८ आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जन्तु समुद्रों में चलते फिरते हैं ॥

९ हे यहोवा हे हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथिवी पर क्या ही प्रतापमय है ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । भूतलवर्षन में । दाऊद का भजन ।

९. हे यहोवा मैं अपने सारे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा

मैं तेरे सब आश्चर्य्य कर्मों का वर्णन करूँगा ॥

२ मैं तेरे कारण अनन्दित और प्रफुल्लित हूँगा हे परमप्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊँगा ॥

३ क्योंकि मेरे शत्रु उलटे फिरे हैं वे तेरे साम्हने से ठोकर खाकर नाश होते हैं ॥

४ तू ने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है तू सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय करता है ॥

५ तू ने अन्यायियों के डुकुका और दुष्ट को नाश किया

तू ने उस का नाम अनन्तकाल के लिये मिटा दिया है ॥

शत्रु जो हैं सो भिलाय गये वे अनन्तकाल के लिये उजड़ गये

और जिन नगरों को तू ने ढा दिया उन का नाम भी मिट गया है ॥

पर यहोवा सदा विराजमान रहेगा ७ उस ने अपना सिंहासन न्याय के लिये सिद्ध किया है ॥

और वह आप जगत का न्याय धर्म से करेगा ८ वह देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा ॥

और यहोवा पिसे हुआँ के लिये ऊँचा गढ़ ९ वह संकट के समय के लिये भी ऊँचा गढ़ ठहरेगा ॥

और तेरे नाम के जाननेहारे तुझ पर भरोसा १० रखेंगे

क्योंकि हे यहोवा तू ने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया ॥

यहोवा जो सियोन में विराजता है उस का भजन ११ गाओ

जाति जाति के लोगों के बीच उस के महाकर्मों का प्रचार करो ॥

क्योंकि तूने पलटा लेनेहारे ने उन का स्मरण १२ किया है

और दीन लोगों की दोहाई को नहीं बिसराया ॥

हे यहोवा तुझ पर अनुग्रह कर १३ तू मेरे दुःख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं

तू जो मुझे रत्यु के फाटकों के पास से उठाता है इसलिये कि मैं सियोन<sup>४</sup> के फाटकों के पास तेरे १४

सब शत्रुओं का वर्णन करूँ और तेरे किये हुए उद्धार से मगन होऊँ ॥

अन्य जातिवालों ने जो गढ़वा खीदा था उसी में १५ वे आप गिर पड़े

जो जाल उन्होंने ने लगाया था उस में उन्हीं का पाँव फँस गया ॥

यहोवा ने अपने को प्रगट किया उस ने न्याय १६ चुकाया है

दुष्ट अपने किये हुए कामों में फँस जाता है ॥ हिग्गियोन । सैला ॥

दुष्ट अधोलोक में लौटा दिये जाएंगे १७ जितनी जातियाँ परमेश्वर को भूल जाती हैं ॥

(१) मूल में मुँह से । (२) मूल में शत्रुजियों ।

(३) वा स्वगृहताँ से ।

(४) मूल में सियोन की पुरी ।



१८ क्योंकि दरिद्र लोग अनन्तकाल लों बिसरे हुए  
न रहेंगे  
नम्र लोगों की आशा सदा के लिये नाश न  
होगी ॥

१९ हे यहोवा उठ मनुष्य प्रबल न हो  
जातियों का न्याय तेरे साम्हने किया जाए ॥

२० हे यहोवा उन को भय दिखा  
जातियां अपने को मनुष्यमात्र जानें । सेला ॥

१०. हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता

संकट के समय में क्यों छिपा रहता है ॥

२ दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े  
जाते हैं

वे अपनी निकाली हुई युक्तियों में फंस जायें ॥

३ क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर धमएड करता  
और लोभी यहोवा का त्याग और तिरस्कार  
करता है ॥

४ दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह  
लेखा नहीं लेने का

उस का सारा विचार यही है कि परमेश्वर है  
ही नहीं ॥

५ वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है तेरे  
न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उन को  
देख नहीं पड़ते

जितने उस के विरोधी हैं उन पर वह फुफ-  
कारता है ॥

६ उस ने सोचा है कि मैं नहीं टलने का  
मैं दुःख से पीढ़ी से पीढ़ी लों बचा रहूंगा ॥

७ उस का मुंह साप और छल और अधेरे से  
भरा है

वह उत्पात और अनर्थ की बातें बोला करता  
है ॥

८ वह गांवां के ढूका लगने के स्थानों में बैठा करता  
और छिपने के स्थानों में निर्दोष को घात  
करता है

उस की आंखें लाचार को छिपकर ताकती हैं ॥

९ जैसा सिंह अपनी भाड़ी में तैसा वह भी छिपकर  
घात में बैठा करता है

वह दीन को पकड़ने के लिये उस की घात में  
लगता है

जब वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट  
लाता है तब उसे पकड़ लेता है ॥

वह फुक जाता और दबक बैठता है १०  
और लाचार लोग उस के महाबल से पटके जाते  
हैं ।

उस ने अपने मन में सोचा है कि ईश्वर मूल गया ११  
उस ने अपना मुंह फेर लिया? वह कभी नहीं  
देखने का ।

हे यहोवा उठ हे ईश्वर अपना हाथ उठा दीन १२  
लोगों को मूल न जा ॥

परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है उस ने १३  
सोचा कि तू लेखा न लेगा ॥

तू ने देखा है क्योंकि तू उत्पात और कलपाने पर १४  
दृष्टि रखता है कि उस का पलटा ले?

लाचार अपने को तेरे हाथ में छोड़ता है

बपमूए का सहायक तू ही बना है ॥

दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल १५  
और दुर्जन की दुष्टता का लेखा तब लों लेता जा

जब लों वह बनी रहे ॥

यहोवा अनन्तकाल के लिये राखा है १६  
उस के देश में से अन्यजाति लोग नाश हो गये हैं ॥

हे यहोवा तू ने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी १७  
तू उस का मन तैयार करेगा तू कान लगाएगा

इसलिये कि तू बपमूए और पिसे हुए का न्याय १८  
चुकाएगा

कि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने  
न पाए ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । दाऊद का ।

११. मैं यहोवा का शरणागत हूँ तुम लोग  
मुझ से न्योकर कह सकते हो

कि चिड़िया की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा ॥

क्योंकि देख दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते २  
और अपना तीर धनुष की डोरी से जोड़ते हैं

कि सीधे मनवालों पर अधेरे में तीर चलाए ॥

नेवें टाई जाती हैं ३  
धर्मों से क्या बना ॥

यहोवा अपने पवित्र मन्दिर में है ४  
यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है

वह अपनी आंखों से मनुष्यों को ताकता और आंख  
गड़ाकर उन को जांचता है ॥

(१) मूल में छिपाया ।

(२) मूल में उसे अपने हाथ में रखे ।

(३) मूल में अपना पलकों से ।

- ५ यहोवा धर्मी को ही जानता है  
पर वह उन से जी भर कर रखता है जो दुष्ट  
... हैं और उपद्रव में पीति रखते हैं ॥
- ६ वह दुष्टों पर फन्दे बरसाएगा  
आग और मन्त्रक और प्रचयड लूड उन के  
कटोरों में बाँट दी जाएगी ॥
- ७ क्योंकि यहोवा धर्ममय है वह धर्म के कामों से  
प्रसन्न रहता है  
सीधे लोग उस का दर्शन पाएंगे ॥  
प्रधान बजानेहार के लिये । दाऊद का भजन ।
- १२. हे** यहोवा बचा क्योंकि एक भी  
मनुष्यों में से विश्वासयोग्य लोग मर मिटे हैं ॥  
सब कोई एक दूसरे से व्यर्थ ही बात बकते हैं  
वे चापलूसी के साथ बुरंगी बातें कहते हैं ।  
यहोवा सब चापलूसों को नाश करे  
और उस जीभ को जिस से बड़ा बोल  
निकलता है ॥  
वे कहते हैं कि हम बात करने ही से  
जीतेंगे  
हमारे मुँह हमारे बरा में हैं हमारा कौन प्रभु है ॥  
दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने  
के कारण  
यहोवा कहता है कि अब मैं उठंगा  
जिस बचाव की लाजसा वह करता वह उसे  
दूंगा २ ।
- ६ यहोवा के बचन खरे हैं  
वे उस चाँदी के समान हैं जो पृथिवी पर बढ़िया  
में ताई गई  
और सात बार निर्मल की गई हो ॥
- ७ हे यहोवा तू उन की रक्षा करेगा  
तू उन को इस काल के लोगों से सदा बचा  
रखेगा ॥
- ८ जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता  
तब दुष्ट लोग चारी और अकड़ते फिरते हैं ॥  
प्रधान बजानेहार के लिये । दाऊद का भजन ।
- १३. हे** यहोवा तू कब लो मुझे लगा-  
तार भूला रहेगा  
कब लो अपना मुख मुझ से छिपाये रहेगा ॥

- मैं कब लो अपने मन में मुक्तियाँ करता रहूंगा २  
और दिन भर मेरा जी उदास रहेगा  
कब लो मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा ॥  
हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर निहार के मुझे ३  
उत्तर दे  
मेरी आँखों में ज्योति आने दे नहीं तो मुझे मृत्यु  
की नींद आ जाएगी  
न हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल ४  
हुआ  
और मेरे सतानेहार मेरे डगमगाने पर मगन हो ॥  
पर मैं तो तेरी कृपा पर भरोधा रखता हूँ ५  
मेरा हृदय तेरे किये हुये उद्धार से मगन होगा ।  
मैं यहोवा के नाम का गीत गाऊंगा ६  
क्योंकि उस ने मेरी मलाई की है ॥  
प्रधान बजानेहार के लिये दाऊद का भजन ।
- १४. मुँह** ने अपने मन में कहा है  
कि परमेश्वर है ही नहीं  
वे बिगड़ गये उन्हो ने बिनोने काम किये सुकम्मी  
कोई नहीं ॥  
यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्यों को निहारा है २  
कि देखे कि कोई बुद्धि से चलता  
वा परमेश्वर को पूछता है ॥  
वे सब के सब मटक गये सब एक साथ ३  
बिगड़ गये  
कोई सुकम्मी नहीं एक भी नहीं ॥  
क्या किसी अनर्थकारी को कुछ शान नहीं रहता ४  
वे मेरे लोगों को रोटी जानकर खा जाते हैं  
और यहोवा का नाम नहीं लेते ॥  
वहाँ वे मयभीत हुए ५  
क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच रहता है ॥  
तुम तो दीन की मुक्ति को तुच्छ जानते हो ६  
इसलिये कि यहोवा उस का शरयस्थान है ॥  
भला हो कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से ७  
प्रगट हो  
जब यहोवा अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा  
ले आएगा  
तब याकूब मगन और इस्राएल आनन्दित होगा ॥  
दाऊद का भजन ।

- १५. हे** यहोवा तेरे तंबू में कौन टिकने  
पाएगा तेरे पवित्र पर्वत पर  
कौन बसने पाएगा ॥

(१) मूल में अपनी जीभ के द्वारा ।

(२) वा जिस पर लोग पुष्कार करते हैं उस को मैं अभयदान दूंगा ।

- २ जो खराई से चलता और धर्म के काम करता  
और मन में सब्वाई का विचार करता है ॥
- ३ जो चुगली नहीं करता  
और न किसी दूसरे से बुराई करता  
न अपने पड़ोसी की निन्द सुनता है  
जिस के लेखे निकम्मा मनुष्य तो तुच्छ है  
पर वह यहोवा के दरबैयों का आदर करता  
है जो किरिया खाने पर हानि भी देखकर नहीं  
बदलता।
- ५ जो अपना धर्या ब्याज पर नहीं देता  
न निर्दोष की हानि करने के लिये घूस लेता है जो  
कोई ऐसी चाल चलता है सो कभी न टलेगा ॥  
मिक्कान । दाऊद का ।
१६. हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं  
तेरा शरणागत हूँ ॥
- २ हे मन तू ने यहोवा से कहा है कि तू मेरा प्रभु है  
तुझे छोड़ मेरा कुछ भला नहीं ॥
- ३ पृथिवी पर जो पवित्र लोग हैं  
सोई आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न  
रहता हूँ ॥
- ४ जो यहोवा को किसी दूसरे से बदल लेते हैं उन के  
दुःख बहुत होंगे  
मैं उन के लोहूवाले तपावन नहीं देने का  
और उन का नाम तक नहीं लेने का ॥
- ५ यहोवा मेरा भाग और मेरे कठोरों में का हिस्सा है  
मेरे बाट को तू स्थिर रखता है ॥
- ६ मेरे लिये माप का डोरी मनभावने स्थान में पड़ी  
और मेरा भाग मुझे भावता है ॥
- ७ मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उस ने मुझे  
सम्मति दी  
मेरा मन भी रात में मुझे चिन्ता देता है ॥
- ८ मैं यहोवा को निरन्तर अपने सन्मुख जानता  
आया हूँ  
वह मेरे दहिने रहता है इसलिये मैं नहीं  
टलने का ॥
- ९ इस कारण मेरा हृदय आनन्दित और मेरा  
आत्मा<sup>२</sup> मगन हुआ  
मेरा शरीर भी बेखटके रहेगा ॥
- १० क्योंकि तू मेरे जीव को अबोलोक में न छोड़ेगा  
न अपने भक्त को सङ्गने देगा ॥

(१) मूल में अपने हाँठों पर नहीं लेने का ।

(२) मूल में रखता । (३) मूल में संहिया ।

तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा  
तेरे निकट आनन्द की भरपूरी है  
तेरे दहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है ॥  
दाऊद की प्रार्थना ।

१७. हे यहोवा धर्म के वचन सुन  
मेरी पुकार की और ध्यान दे  
मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुँह से निकलती  
है कान लगा ॥
- मेरे मुकहमे का निर्याय कर  
तेरी आँखें न्याय पर लगी रहें ॥
- तू ने मेरे हृदय को जाँचा तू रात को देखने के  
लिये आया  
तू ने मुझे ताया पर कुछ नहीं पाया  
मैं ने डान लिया है कि मेरे मुँह से अपराध की  
बात न निकलेगी ॥
- मनुष्यों के कामों के विषय—मैं तेरे मुँह के वचन  
के द्वारा  
बरियाई करनेहारे की सी चाल से अपने को  
बचाये रहा ॥
- मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर हैं  
मेरे पैर नहीं टलने के ॥
- हे ईश्वर मैं ने तुझे पुकारा है क्योंकि तू मेरी सुन  
लेगा  
अरना कान मेरी ओर लगाकर मेरी बात सुन ॥
- तू जो अपने दहिने हाथ के द्वारा अपने शरणा-  
गतों को उन के विरोधियों से बचाता है  
अपनी अद्भुत करुणा दिखा ॥
- आँख की पुतली की नाई मेरी रक्षा कर  
अपने जंखों तले मुझे छिपा रख  
उन दुष्टों से जो मेरा नाश किया चाहते हैं  
मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे बेरे हुए हैं ॥
- वे मोटे हो गये हैं  
उन के मुँह से धर्म की बातें निकलती हैं ॥
- हमारे पगों को वे अब धर चुके हैं  
वे हम को भूमि पर पटक देने के लिये टकटकी  
लगाये हुए हैं ॥
- वह सिंह की नाई फाड़ने की लालसा करता है  
और जवान सिंह की नाई टूका लगाने के स्थानों  
में बैठा रहता है ॥
- हे यहोवा उठ  
उसे छेँक उसको दबा दे  
अपनी तलवार के बल मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ॥

- १४ अपना हाथ बढ़कर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा  
संक्षरी मनुष्यों से जिन का भाग इसी जीवन में है  
और जिन का पेट तु अपने भण्डार से भरता है  
वे लड़के-बालों से घुस होते  
और जो वे बचाते हैं सो अपने बच्चों के लिये  
छोड़ जाते हैं ॥
- १५ पर मैं तो धर्मी ठहरके तेरे मुख के निहाङ्गा  
जब मैं जागंगा तब तेरे स्वरूप को देखकर तृप्त  
हूँगा ॥
- प्रधान बचानेहारों के लिये । यहोवा के दास दाऊद का गीत जिस  
के बचन उस ने यहोवा के लिये उस समय गाये जब यहोवा  
ने उस को उस के सारे शत्रुओं के हाथ से और  
शाऊल के हाथ से बचाया था । उस ने कहा
- १८. हे यहोवा हे मेरे बल मैं तुझ**  
से स्नेह रखता हूँ ॥
- २ यहोवा मेरा दांग और मेरा गढ़ और मेरा  
छुड़ानेहारा  
मेरा ईश्वर और मेरी चटान है जिस का मैं  
शरणागत हूँ  
वह मेरी ढाल मेरा बचानेहारा सींग और मेरा  
ऊंच गढ़ है ॥
- ३ मैं यशोरा की जो स्तुति के योग्य है पुकारूँगा  
और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊँगा ॥
- ४ मैं मृत्यु की रस्सियों से चारों ओर घिर गया और  
नीचपन की धारों ने मुझ को घबरा दिया था ॥
- ५ अधोलोक की रस्सिया मेरे चारों ओर थीं  
और मृत्यु के फन्दे मेरे साम्ने थे ॥
- ६ अपने संकट में मैं ने यहोवा को पुकारा  
मैं ने अपने परमेश्वर की दोहाई दी  
और उस ने मेरी बात को अपने मन्दिर में से  
सुना  
और मेरी दोहाई उस के पास पहुँचकर उस के  
कानों में पड़ी ॥
- ७ तब पृथिवी हिल गई और डोल उठी  
और पहाड़ों की नेवें कांपकर बहुत ही हिल गईं  
क्योंकि वह क्रोधित हुआ था ॥
- ८ उस के नयनों से धूआँ निकला  
और उस के मुँह से आग निकलकर भस्म करने  
लगी  
जिस से कोएले दहक उठे ॥
- ९ और वह स्वर्ग को नीचे करके उतर आया

- और उस के पाँवों तले घोर अंधकार था ॥  
और वह ककुब पर चढ़ा हुआ उड़ा ॥ १०  
और पवन के पंखों पर चढ़कर वेग से उड़ा ॥  
उस ने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और ११  
अपने चारों ओर का मण्डप ठहराया  
मेघों का ? अंधकार और आकाश की काली घटाएँ ॥  
उस के सन्मुख की भस्मक से उस की काली घटाएँ १२  
फट गईं  
ओले और अंगारे ॥  
तब यहोवा आकाश में गरजा १३  
और परमप्रधान ने अपनी बायीं सुनाई  
आंले और अंगारे ॥  
और उस ने तीर चला चलाकर मेरे शत्रुओं को तितर १४  
बितर किया  
और बिजली गिरा गिराकर उन को घबरा दिया ॥  
जब जल के नाशे देख पड़े १५  
और जगत की नेवें खुल गईं  
यह तो हे यहोवा तेरी डांट से  
और तेरे नयनों की सांस की भोक से हुआ ॥  
उस ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थांभ लिया १६  
और गहरे जल में से खींच लिया ॥  
उस ने मेरे बलवन्त शत्रु से १७  
और मेरे बैरियों से जो मुझ से अधिक सामर्थी थे  
मुझे छुड़ाया ॥  
मेरा विपत्ति के दिन उन्होंने ने मेरा साम्ना तो १८  
किया  
पर यहोवा मेरा आश्रय था ॥  
और उस ने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में १९  
पहुँचाया  
उस ने मुझ को छुड़ाया क्योंकि वह मुझ से  
प्रसन्न था ॥  
यहोवा ने मुझ से मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार २०  
किया  
मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उस ने मुझे  
बदला दिया ॥  
क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा २१  
और अपने परमेश्वर से फिर के दुष्ट न बना ॥  
उस के सारे नियम मेरे साम्ने बने रहे २२  
और उस की विधिओं से मैं हट न गया ॥  
और मैं उस के साथ खरा बना रहा २३

- १४ और अधर्म में अपने को बचाये रहा ॥  
सा यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला  
दिया  
मेरे कामों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह  
देखता था ॥
- १५ दयावन्त के साथ तू अपने को दयावन्त दिखाता  
खरै पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है ॥
- १६ शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता  
और टेढ़े के साथ तू तिकुर्त बनता है ॥
- १७ क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है ॥  
पर धमक मरी आँसुओं को नीची करता है ॥
- २८ तू ही मेरे दीपक को बरता है  
मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके  
उजियाला कर देता है ॥
- २९ तेरा सहायता से मैं दल पर घाश करता  
और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरनाश  
को लांघ जाता हूँ ॥
- ३० ईश्वर की गति खरी है  
यहोवा का बचन ताया हुआ है  
वह अपने सब शरणागतों की टाल ठहरा है ॥
- ३१ यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है  
हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चटान है ॥
- ३२ यह वही ईश्वर है जो मेरी कमर बंधाता  
और मेरे मार्ग को ठीक करता है ॥
- ३३ वह मेरे पैरों को हरिणियों के से करता  
और मुझे ऊँचे स्थानों पर खड़ा करता है ॥
- ३४ वह मुझे युद्ध करना सिखाता है  
मेरी बाहों से पीतल का धनुष नबता है ॥
- ३५ तू ने मुझ को बचाव की टाल दी  
और तू अपने दहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है  
और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है ॥
- ३६ तू मेरे पैरों के लिये स्थान चौड़ा करता है  
और मेरे टकने नहीं डिंगे ॥
- ३७ मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़  
लूंगा  
और जब लो उन का अन्त न करूँ तब लो न  
फिरूंगा ॥
- ३८ मैं उन्हें ऐसा मारूंगा कि वे उठ न सकेंगे  
पर मेरे पाँवों के नीचे पड़ेंगे ॥

(१) मूल में अपने अधर्म से । (२) मूल में मेरे हाथों ।  
(३) मूल में मेरे ऊँचे स्थानों पर । (४) मूल में मेरे हाथों को ।  
(५) मूल में अपने बचाव ।

- और तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर बंधाई १९  
और मेरे विरोधियों को मेरे तले दबा दिया ॥  
और तू ने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई ४०  
कि मैं अपने बैरियों का सत्यानाश करूँ ॥  
उन्हो ने दोहाई तो दी पर उन्हें कोई बचानेहार ४१  
न मिला  
उन्हो ने यहोवा की भी दोहाई दी पर उस ने  
उन की न सुन ली ॥  
मैं ने उन को कूट कूटकर पवन से उड़ाई हुई धूल ४२  
के समान कर दिया  
मैं ने उन्हें सबको की कीच के समान निकाल  
फेंका ॥  
तू ने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर ४३  
अन्य जातियों का प्रधान ठहराया  
जिन लोगों को मैं न जानता वे मेरे अधीन हो गये ॥  
कान से सुनते ही वे मेरे बश में आएंगे ४४  
परदेशी मेरी चापलूसी करेंगे ॥  
परदेशी लोग मुझांपंगे ४५  
और अपने कोटों में से थरथराते हुए निकलेंगे ॥  
यहोवा जीता है और जो मेरी चटान ठहरा सो ४६  
धन्य है  
और मेरे बचानेहारे परमेश्वर की बड़ाई हो ॥  
धन्य है मेरा पलटा लेनेहारा ईश्वर ४७  
जिस ने देश देश के लोगों को मेरे तले दबा  
दिया है  
और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है ४८  
तू मुझ को मेरे विरोधियों से उंचा करता  
और उपद्रवी पुरुष से बचाता है ॥  
इस कारण मैं जाति जाति के साम्हने तेरा धन्यवाद ४९  
करूंगा  
और तेरे नाम का भजन गाऊंगा ॥  
वह अपने ठहराये हुए राजा का बड़ा उदार करता है ५०  
वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उस के वंश  
पर युग युग करुणा करता रहेगा ॥  
प्रधान बचानेहारे के लिये । शब्द का भजन ॥

### १९. आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है

आकाशमण्डल उस के हाथों के काम प्रगट  
करता है ॥

दिन से दिन बातें करता २

और रात को रात शान मिलाती है ॥

(६) मूल में परदेशी के लड़के मुझ से कूट बालेंगे ।

- ३ न तो बातें न बचन  
न उन का कुछ शब्द सुनाई देता है ॥
- ४ उन के स्वर सारी पृथिवी पर  
और उन के वचन जगत की छोर लों पहुँच गये  
हैं  
उन में उस ने सूर्य के लिये एक डेरा खड़ा किया  
है ॥
- ५ सूर्य मण्डप से निकलते हुए दुन्दे के समान है  
वह वीर की नाई अपनी दौड़े दौड़ने को हर्षित  
होता है ॥
- ६ वह आकाश की एक छोर से निकलता है  
और वह उस की दूसरी छोर लों चक्कर मारता है  
और उस का घाम<sup>२</sup> सब को पहुँचता है ॥
- ७ यहोवा की व्यवस्था खरी है जी में जी ले  
आनेहारी  
यहोवा की चितौनी विश्वासयोग्य है भोले को बुद्धि  
देनेहारी ॥
- ८ यहोवा के उपदेश सीधे हैं हृदय को आनन्दित  
करनेहारे  
यहोवा की आशा निर्मल है आँखों में ज्योति ले  
आनेहारी ॥
- ९ यहोवा का भय शुद्ध है अनन्तकाल लों  
ठहरनेहारा  
यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय  
हैं ॥
- १० वे तो सोने से और बहुत कुन्दन से भी बढ़कर  
मनभाऊ हैं  
वे मधु से और टपकनेहारे छूत्ते से भी बढ़कर  
मधुर हैं ॥
- ११ फिर उन से तेरा दास चिताया जाता है  
उन के पालन करने से बड़ा ही बदला मिलता  
है ॥
- १२ अपनी भूलचूक को कौन समझ सके  
मेरे गुप्त पापों से तू मुझे निर्दोष ठहरा दे ॥
- १३ और दिठाई<sup>२</sup> से भी अपने दास को रोक रख  
वह मुझ पर प्रभुता करने न पाएँ तब मैं खरा  
हूँगा  
और बड़े अपराध के विषय निर्दोष ठहरूँगा ॥
- १४ हे यहोवा हे मेरी चटान और मेरे कुड़ानेहारे  
मेरे मुँह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तुझे  
भाए ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । दाऊद का भजन ।

२०. संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले  
याकूब के परमेश्वर का नाम

तुझे ऊँचे स्थान पर बैठाए ॥

वह पवित्रस्थान से तेरी सहायता करे २  
और सिय्योन से तुझे लभाल ले ॥

वह तेरे सब अज्ञबलियों को स्मरण करे ३  
और तेरे होमबलि को ग्रहण करे<sup>३</sup> । सेला ॥

वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे ४  
और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे ॥

तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊँचे स्वर से गाएंगे ५  
और अपने परमेश्वर के नाम से अपने भण्डे खड़े  
करेंगे

यहोवा तेरे सब भुह मांगे वर दे ॥  
अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का ६

उद्धार करता है

वह अपने पवित्र स्वर्ग से उस की सुनकर  
अपने दहिने हाथ के उद्धार करनेहारे पराक्रम के  
कामो से सहायता करेगा ॥

कोई तो रथों की और कोई घोड़ों की ७  
पर हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम ही की  
चर्चा करेंगे ॥

वे तो मुक गये और गिर पड़े ८  
पर हम उठे और सीधे खड़े हैं ॥

हे यहोवा बचा ले ९  
जिस दिन हम पुकारें उस दिन राजा हमारी सुन ले ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । दाऊद का ।

२१. हे यहोवा तेरे सामर्थ्य से राजा आन-  
न्दित होगा

और तेरे किये हुए उद्धार से वह अति मगन  
होगा ॥

तू ने उस के मनोरथ को पूरा किया २  
और उस के मुँह की बिनती को तू ने नाह नहीं  
किया । सेला ॥

तू उत्तम आशिर्ष देता हुआ उस से मिलता है ३  
तू उस के सिर पर कुन्दन का मुकुट पहिनाता है ॥

उस ने तूझ से जीवन मांगा ४  
तू ने उस को युग युग का जीवन दिया ॥

उस की महिमा तेरे किये हुए उद्धार के कारण ५  
बढ़ी है

(१) मूल में गर्मी । (२) वा डीठों ।

(३) मूल में चिकनाई जानकर ग्रहण करे ।

- बिभव और ऐश्वर्य्य तू उस को देता है ॥  
 ६ तू उस को सदा के लिये आशिर्षों का भण्डार  
 ठहराता है  
 तू उस को अपने सन्मुख हर्ष और आनन्द से भर  
 देता है ॥
- ७ क्योंकि राजा यहोवा पर भरोसा रखता है  
 और परमप्रधान की करुणा से वह नहीं टलने का ॥
- ८ तू अपने हाथ से अपने सब शत्रुओं को पकड़ेगा  
 और अपने दहिने हाथ से अपने बैरियों को धर  
 लेगा ॥
- ९ तू प्रगट होने के समय उन्हें जलते हुए भट्टे की  
 नाईं जलाएगा<sup>१</sup>  
 यहोवा अपने क्रोध के मारे उन्हें निगल जाएगा  
 और आग उन को भस्म कर डालेगी ॥
- १० तू उन की संतान को पृथिवी पर से  
 और उन के वंश को मनुष्यों में से नाश करेगा ॥
- ११ क्योंकि उन्होंने ने तेरी हानि का यत्न किया  
 उन्होंने ने युक्ति निकाली तो है पर उस को पूरी न  
 कर सकेंगे ॥
- १२ क्योंकि तू अपना धनुष उन के विरुद्ध चढ़ाएगा  
 और वे पीठ दिखाकर भागेंगे ॥
- १३ हे यहोवा अपने सामर्थ्य से महान् हो  
 और हम गा गाकर तेरे पराक्रम का भजन  
 सुनाएंगे ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । अग्नेयेश्वर<sup>२</sup> में ।  
 दाऊद का भजन ।

**२२. हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तू ने मुझे  
 क्यों छोड़ दिया**

- मेरी पुकार से क्या बनता मेरा बचाव कहाँ<sup>३</sup>  
 हे मेरे परमेश्वर मैं दिन के पुकारता तो हूँ पर  
 तू नहीं सुनता  
 और रात को भी मैं चुप नहीं रहता ॥
- ३ पर हे इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर  
 विराजमान  
 तू तो पवित्र है
- ४ हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे  
 वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था ॥
- ५ वे तेरी ही ओर चिल्लाते और छुड़ाये जाते थे

वे तुझी पर भरोसा रखते थे और उन की आशा  
 न टूटती थी ॥

- पर मैं कौड़ा हूँ मनुष्य नहीं ६  
 मनुष्यों में मेरी नामधराई और लोगों में मेरा  
 अपमान होता है ॥
- जितने मुझे देखते हैं सो ष्ट्रा करते ७  
 और होठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं  
 कि यहोवा पर अपना भार डाल वह उस को छुड़ाए ८  
 वह उस को उबारे क्योंकि वह उस से प्रसन्न तो है ॥  
 पर तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला ९  
 जब मैं दूधपिउवा बच्चा था तब भी तू ने मुझे  
 भरोसा रखना सिखाया<sup>४</sup>
- मैं जन्मते ही तुझ पर डाल दिया गया १०  
 माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है ॥  
 मुझे से दूर न हो क्योंकि संकट निकट है ११  
 और कोई सहायक नहीं ॥  
 बहुत से साँड़ों ने मुझे घेरा १२  
 बाशान के बलवन्त मेरे चारों ओर आये हैं ॥  
 फाड़ने और गरजनेहारे सिंह की नाईं १३  
 उन्होंने ने मेरे लिये अपना मुँह पसागा है ॥  
 मैं जल की नाईं बह गया १४  
 और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गये  
 मेरा हृदय मोस हो गया  
 वह मेरी देह के भीतर पिघल गया ॥  
 मेरा बल टूट गया मैं ठीकरा हो गया १५  
 और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई  
 और तू मुझे मारके भिष्टी में मिला देता है ॥  
 क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेरा १६  
 कुकर्मियों की मण्डली मेरे चारों ओर आई  
 उन्होंने ने मेरे हाथों और पैरों को छेदा है ॥  
 मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ १७  
 वे मुझे देखते और निहारते हैं ॥  
 वे मेरे वस्त्र आपस में बाँटते १८  
 और मेरे पहिरावे पर चिट्ठी डालते हैं ॥  
 पर हे यहोवा तू दूर न रह १९  
 हे मेरे सहायक मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ॥  
 मेरे प्राण के तलवार से २०  
 मेरे जीव को<sup>५</sup> कुत्ते के पंजे से बचा ले ॥  
 मुझे सिंह के मुँह से बचा २१

(१) मूल में रक्खेगा ।

(२) अर्थात् औरवाली हरिणी ।

(३) मूल में मेरे गोहराने का वचन मेरे उद्धार से दूर है ।

(४) मूल में भरोसा दिया ।

(५) मूल में मेरी एकली को ।

- तू ने मेरी सुन कर बनेले बैलों के सींगों से बचाता  
लिया है ॥
- २२ मैं अपने भाइयों के साम्हने तेरे नाम का प्रचार  
करूंगा  
सभा के बीच मैं तेरी स्तुति करूंगा ॥
- २३ हे यहोवा के डरवैयो उस की स्तुति करो  
हे याकूब के सारे वंश तुम उसकी बढ़ाई करो  
और हे इस्राएल के सारे वंश तुम उस का भय  
मानो ॥
- २४ क्योंकि उस ने दुःखी को तुच्छ नहीं जाना न उस  
से धिन की है  
और न उस से अपना मुख छिपा लिया  
पर जब उस ने उस की दाहाई दी तब उस की  
सुन ली ॥
- २५ बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही आंर से  
होता है  
मैं अपनी भन्नतें उस के डरवैयो के साम्हने पूरी  
करूंगा ॥
- २६ नम्र लोग भोजन करके तुम होंगे  
जो यहोवा के खोजी हैं वे उस की स्तुति करेंगे  
तुम्हारे जीव सदा जीते रहें ॥
- २७ पृथिवी के सब दूर दूर देशों के लोग चेत करके  
यहोवा की आंर फिरेंगे  
और जाति जाति के सब कुल तेरे साम्हने दण्डवत्  
करेंगे ॥
- २८ क्योंकि राज्य यहोवा ही का है  
और सब जातियों पर वही प्रभुता करनेहार है ॥
- २९ पृथिवी के सब दृष्टपुष्ट लोग भोजन करके  
दण्डवत् करेंगे  
जितने मिट्टी में मिल जानेहार हैं  
और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते वे सब  
उसी के साम्हने घुटने टेकेंगे ॥
- ३० उस की सेवा करनेहार एक वंश हांगा  
दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा ॥
- ३१ लोग आकर उस का धर्मी होना बताएं  
वे उत्पन्न होनेहार लोगों से कहेंगे कि उस ने काम  
किया है ॥  
दाऊद का भजन ।

**२३. यहोवा** मेरा चरवाहा है मुझे कुछ  
घटी न होगी ॥

- २ वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता  
वह मुझे सुखदाई जल के पास ले चलता है ॥

- वह मेरे जी में जी ले आता है ३  
धर्म के भागों में वह अपने नाम के निर्मित्त  
मेरी अनुवाई करता है ॥  
चाहे मैं घोर अन्धकार से भरी हुई तराई में ४  
होकर चल  
तौभी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ  
रहता है  
तेरे सांटे और लाठी से मेरी शांति मिलती है ॥  
तू मेरे सतानेहारों के साम्हने मेरे लिये मेज ५  
लगाता है  
तू ने मेरे सिर पर तेल डाला है  
मेरा कटोरा उमण्ड रहा है ॥  
सचमुच भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे ६  
पीछे बनी रहेंगी  
और मैं यहोवा के घर में पहुँचकर १ डेर दिन रहूंगा ॥  
दाऊद का भजन ।

**२४. पृथिवी** और जो कुछ उस में है  
यहोवा ही का है

- जगत अपने बासियों समेत उसी का है ॥  
क्योंकि उसी ने उस को समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके २  
रक्खा  
और महानदों के ऊपर स्थिर किया है ॥  
यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता ३  
और उस के पवित्रस्थान में कौन खड़ा हो सकता है ॥  
जिस के काम २ निर्दोष आंर हृदय शुद्ध है ४  
जिस ने अपने मन को व्यर्थ बात की आंर नहीं  
लगाया  
और न कपट से किरिया खाई है ॥  
वह यहोवा की आंर से आशिष पाएगा ५  
और अपने उद्धार करनेहार परमेश्वर की आंर से  
धर्मी टहरेगा ॥  
ऐसे ही लोग उस के खाजी हैं ६  
वे तेरे दर्शन के खोजी याकूबवंशी हैं । मन्ना ॥  
हे फाटका खुल जाओ ७  
और हे सनातन द्वार खुल जाओ ४  
कि प्रतापी राजा प्रवेश करे ॥  
वह प्रतापी राजा कौन है ८  
वह तो सामर्थी श्री पराक्रमी यहोवा है  
वह युद्ध में पराक्रमी यहोवा है ॥  
हे फाटको खुल जाओ ९

(१) मूल में लौटकर । (२) मूल में के हाथ ।  
(३) मूल में अपने सिर उठाओ । (४) मूल में अपने की उठाओ ।



- और हे सनातन द्वारो तुम भी खुल जाओ<sup>२</sup>  
कि प्रतापी राजा प्रवेश करे ॥
- १० वह जो प्रतापी राजा है सो कौन है  
सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है । सेला ॥  
दाऊद का ।
- २५. हे** यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर  
लगाता<sup>२</sup> हूँ ॥
- २ हे मेरे परमेश्वर मैं ने तुम्ही पर भरोसा रक्खा है  
मेरी आशा टूटने न पाए  
मेरे शत्रु मुझ पर जयजयकार करने न पाएँ ॥
- ३ बरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उन में से किसी  
की आशा न टूटेगी  
पर जो अकारण विश्वासघाती हैं उन्हीं की आशा  
टूटेगी ॥
- ४ हे यहोवा अपने मार्ग मुझ को दिखा दे  
अपने पथ मुझे बता दे ॥
- ५ मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे  
क्योंकि मेरा उद्धार करनेहारा परमेश्वर तू है  
दिन भर मैं तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ ॥
- ६ हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को  
स्मरण कर  
क्योंकि वे तो सदा से होते आये हैं ॥
- ७ हे यहोवा अपनी भलाई के कारण  
मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को  
स्मरण न कर  
अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर ॥  
यहोवा भला और सीधा है  
इस कारण वह पापियों को अपना मार्ग  
दिखाएगा ॥
- ९ वह नम्र लोगों को न्याय पर चलाएगा  
और नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा ॥
- १० जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को  
पालन करते हैं  
उन के लिये उस का सारा व्यवहार करुणा और  
सच्चाई का होता है ॥
- ११ हे यहोवा अपने नाम के निमित्त  
मेरे अधर्म को जो बड़ा है क्षमा कर ॥
- १२ कोई भी मनुष्य जो यहोवा का भय मानता हो  
यहोवा उस के चुने हुए मार्ग में उस की अगुवाई  
करेगा ॥

(१) मूल में अपने को उठाओ ।

(२) मूल में उठाता ।

- वह कुराल से टिका रहेगा १३  
और उस का वंश पृथिवी का अधिकारी होगा ।।  
यहोवा अपने डरवैयों के साथ गाढ़ी मित्रता १४  
रखता है  
और अपनी वाचा खोलकर उन को बताता है  
मेरी आंखें यहोवा पर टकटकी बान्बे हैं १५  
क्योंकि मेरे पापों को जाल में से वही  
छुड़ाएगा ॥  
हे यहोवा मेरी ओर फिरके मुझ पर अनुग्रह कर १६  
क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ ॥  
मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया १७  
तू मुझे सकेती से निकाल ॥  
मेरे दुःख और कष्ट पर दृष्टि कर १८  
और मेरे सारे पापों को क्षमा कर ॥  
मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गये हैं १९  
और मुझ से बड़ा बैर रखते हैं ॥  
मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा २०  
मेरी आशा टूटने न पाए क्योंकि मैं तेरा शरणा-  
गत हूँ ॥  
खराई और सीधाई मेरी रक्षा करें २१  
क्योंकि मैं तेरी बाट जोहता हूँ ॥  
हे परमेश्वर इस्त्राएल को २२  
उस के सारे संकटों से छुड़ा ले ॥

दाऊद का ।

- २६. हे** यहोवा मेरा न्याय चुका क्योंकि  
मैं खराई से चला हूँ ॥  
और मेरा भरोसा यहोवा पर अचल बना है ॥  
हे यहोवा मुझ को जांच और परख २  
मेरे मन और हृदय को ताव ॥  
तेरी करुणा तो मुझे दीखती रहती है ३  
और मैं तेरे सत्य पर चलता फिरता हूँ ॥  
मैं निकम्मी चाल चलनेहारों के संग नहीं बैठा ४  
और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा ॥  
मैं कुकर्मियों की संगति से बैर रखता हूँ ५  
और दुष्टों के संग न बैठूंगा ॥  
मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा ६  
तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा  
कि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूँ । ७  
और तेरे सब आश्चर्यकर्मों का वर्णन करूँ ॥  
हे यहोवा मैं तेरे धाम से ८  
तेरी महिमा के निवासस्थान से प्रीति रखता हूँ ॥

- ९ मेरे प्राण को पापियों के साथ  
और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न  
मिला दे ॥
- १० वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं  
और उन का दाहिना हाथ घुस से भरा  
रहता है ॥
- ११ पर मैं तो खराई से चखूंगा  
तू मुझे छोड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह  
कर ॥
- १२ मेरा पांव चौरस स्थान में स्थिर है  
सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा ॥

दाऊद का ।

**२७. यहोवा** मेरी ज्योति और मेरा उद्धार  
है मैं, किस से डरूं, यहोवा  
मेरे जीवन का हठ गढ़ ठहरा है मैं किस  
का भय खाऊं ॥

- २ जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से  
बैर रखते थे  
मुझे खा डालने के लिये मुझ पर चढ़ाई की थी  
तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े ॥
- ३ चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी करे  
तौभी मैं न डरूंगा  
चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई उठे  
उस दशा में भी मैं हियाव बान्धे रहूंगा ॥
- ४ एक वर मैं ने यहोवा से मांगा है उसी के यत्न में  
लगा रहूंगा  
कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं  
जिस से यहोवा की मनोहरता पर टकटकी लगाये  
रहूं  
और उस के मन्दिर में ध्यान किया करूं ॥
- ५ वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मण्डप में  
छिपा रखेगा  
अपने तंबू के गुप्तस्थान में वह मुझे गुप्त रखेगा  
और चटान पर चढ़ाये रखेगा ॥
- ६ सो अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से  
ऊंचा होगा  
और मैं यहोवा के तंबू में जयजयकार के साथ  
बलिदान चढ़ाऊंगा  
और उस का भजन गाऊंगा ॥
- ७ हे यहोवा सुन मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ  
सो तू मुझ पर अनुग्रह करके मेरी सुन ले ॥

- तू ने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो इसलिये ८  
मेरा मन तुझ से कहता है कि  
हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी होता हूँ ॥
- अपना मुख मुझ से न छिपा ९  
अपने दास को कोप करके न डटा  
तू मेरा सहायक बना है  
हे मेरे उद्धार करनेहारे परमेश्वर मेरा त्याग न कर  
और मुझे छोड़ न दे ॥
- मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है १०  
पर यहोवा मुझे रख लेगा ॥  
हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर ११  
और मेरे द्रोहियों के कारण  
मुझ को चौरस रास्ते पर ले चल ॥  
मुझ को मेरे सतानेहारों की इच्छा पर न छोड़ १२  
क्योंकि भूटे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं  
मेरे विरुद्ध उठे हैं ॥  
मैं विश्वास करता हूँ कि यहोवा की भलाई का १३  
जीते जी देखने पाऊंगा ॥  
यहोवा की बाट जोह १४  
हियाव बांध और तेरा हृदय हठ रहे  
यहोवा की बाट जोहता ही रह ॥

दाऊद का ।

- २८. हे** यहोवा मैं तुझी का पुकारूंगा  
हे मेरी चटान मेरी सुनी अनसुनी न कर  
नहीं तो तेरे चुप लगाये रहने से  
मैं कबर में पड़े हुओं के समान हो जाऊंगा ॥
- जब मैं तेरी दोहाई दूँ २  
और तेरे पवित्रस्थान की भीतरी कोठरी की ओर  
अपने हाथ उठाऊं  
तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ॥  
उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट ३  
जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं  
पर हृदय में बुराई रखते हैं ॥  
उन के कामों के और उन की करनी की बुराई के ४  
अनुसार उन से बर्ताव कर  
उन के हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे  
उन के कामों का पलटा उन्हें दे ॥  
वे जो यहोवा की क्रिया का ५

(१) मल में यदि मैं विश्वास न करता ।

- और उस के हाथों के काम को नहीं विचारते  
इसलिये वह उन्हें पछाड़ेगा और न उठाएगा ॥
- ६ यहोवा धन्य है  
क्योंकि उस ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है ॥
- ७ यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल ठहरा है  
उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता  
मिली है  
इसलिये मेरा हृदय हुलसता है  
और मैं गा गाकर उस का धन्यवाद करूंगा ॥
- ८ यहोवा उन का बल है  
और अपने अभिषिक्त के बचाव के लिये दृढ़ गढ़  
ठहरा है ॥
- ९ हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने  
निज भाग के लोगों को आशिष दे  
और उन की चरवाही कर और सदा लो उन्हें  
संभाले रह ॥

दाऊद का भजन ।

२६. हे बलवन्तों के पुत्रों<sup>१</sup> यहोवा का  
गुणानुवाद करो  
यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो ॥
- २ यहोवा के नाम की महिमा को मानो  
पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दण्डवत्  
करो ॥
- ३ यहोवा की वाणी मेवों<sup>२</sup> के ऊपर सुन पड़ती है  
प्रतापी ईश्वर गरजा है  
यहोवा घने मेवों<sup>३</sup> के ऊपर रहता है ॥
- ४ यहोवा की वाणी शक्तिमान है  
यहोवा की वाणी प्रतापमय है ॥
- ५ यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है  
यहोवा लवानोन के देवदारों को भी तोड़  
डालता है ॥
- ६ वह उन्हें बछड़े की नाई कुदाता है  
वह लवानोन और शियोन के बनेली गावों के  
बच्चों के समान उल्लासता है ॥
- ७ यहोवा की वाणी बिजली को चमकाती<sup>४</sup> है ॥
- ८ यहोवा की वाणी वन को कंपाती  
यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है ॥
- ९ यहोवा की वाणी से हरिशियों का गर्भपात

- और अरण्य में पतझड़ होती है  
और उस के मन्दिर में सब कुछ महिमा महिमा  
बोलता रहता है ॥
- जलप्रलय के समय यहोवा विराजमान था १०  
और यहोवा सदा का राजा होकर विराजमान  
रहता है ॥

- यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा ११  
यहोवा अपनी प्रजा को शान्ति की आशिष देगा ॥

भजन । भजन की प्रतिष्ठा का गीत । दाऊद का ।

३०. हे यहोवा मैं तुम्हें सराहूंगा क्योंकि  
तू ने मुझे खींचकर निकाला है  
और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनन्द करने नहीं  
दिया ॥

- हे मेरे परमेश्वर यहोवा २  
मैं ने तेरी दोहाई दी थी और तू ने मुझे चंगा  
किया है ॥

- हे यहोवा तू ने मेरा प्राण अधोलोक में से ३  
निकाला है  
तू ने मुझ को जीता रक्वा और कबर में पड़ने से  
बचाया है ॥

- हे यहोवा के भक्तों उस का भजन गाओ ४  
और जिस पवित्र नाम से उस का स्मरण होता है  
उस का धन्यवाद करो ॥

- क्योंकि उस का कोप तो क्षण भर का होता है ५  
पर उस की प्रसन्नता जीवन भर की होती है  
सांभ के रोना आकर रहे तो रहे  
पर बिहान को जयजयकार होगा ॥

- मैं ने तो अपने जैन के समय कहा था ६  
कि मैं कभी नहीं टलने का ॥

- हे यहोवा अपनी प्रसन्नता से तू ने मेरे पहाड़ को ७  
दृढ़ और स्थिर किया था  
जब तू ने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा  
गया ॥

- हे यहोवा मैं ने तुम्हीं को पुकारा ८  
और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह बिनती की कि  
मेरे लोहू के बहने के और कबर में पड़ने के समय ९  
क्या लाभ होगा

- क्या मिट्टी तरा धन्यवाद कर सकती क्या वह  
तेरी सच्चाई प्रचार कर सकती है ॥

- हे यहोवा सुनकर मुझ पर अनुग्रह कर १०  
हे यहोवा तू मेरा सहायक हो ॥

(१) वा ईश्वर की पुत्र । (२) मूल में जल ।

(३) मूल में बहुत जल । (४) मूल में आग की लौओं की चौरनी है ।

(५) मूल में द्विपाया ।

- ११ तू ने मेरे बिलाप को दूर करके मुझे आनन्द ले  
नचाया  
तू ने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनन्द  
का फेंटा बांधा है
- १२ इसलिये कि मेरा आत्मा<sup>१</sup> तेरा भजन गाता रहे  
और कभी चुप न हो  
हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सदा तेरा धन्यवाद  
करता रहूँगा ॥
- प्रधान बजानेहारों के लिये । दाऊद का भजन ।
- ३१. हे** यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी  
आशा कभी टूटने न पाए
- २ तू जो धर्मी है तो मुझे छुड़ा ॥  
अपना कान मेरी ओर लगाकर भट्ट मुझे छुड़ा  
मेरे बचाने का दृढ़ चतान और गढ़ का काम दे ॥
- ३ क्योंकि तू मेरे लिये दांग और गढ़ ठहरा है  
तो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और  
मुझे ले चल ॥
- ४ जो जाल उन्होंने मेरे लिये लगाया है उस से  
तू मुझ को छुड़ा  
तू तो मेरा दृढ़ स्थान ठहरा है ॥
- ५ मैं अपने आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ  
हे यहोवा हे सत्यवादी ईश्वर तू ने मुझे छुड़ा  
लिया है ॥
- ६ जां व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उन का मैं  
बैरी हूँ  
और मेरा भरोसा यहोवा ही पर है ॥
- ७ मैं तेरी करुणा से मगन और आनन्दित हूँगा  
क्योंकि तू ने मेरे दुःख पर दृष्टि की है  
मेरे कष्ट के समय तू ने मेरी सुधि ली है ॥
- ८ और तू ने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया,  
तू ने मुझे बेखटका कर दिया है<sup>२</sup> ॥
- ९ हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट  
में हूँ  
मेरी आँखें शोक से धुन्धली पड़ गईं मेरा जीव  
और पैट सूख गया है ॥
- १० मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था करा-  
हते कराहते धट चली  
मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी  
हड्डियों में घुन लग गया है ॥

- मेरे सब सतानेहारों के कारण मेरी नामघराई हुई है ११  
और विशेष करके मेरे पड़ोसियों में हुई है और मैं  
अपने चिन्हारों के लिये डर का कारण हूँ ।  
जो मुझ को सड़क पर देखते सो मुझ से भाग  
जाते हैं ॥
- मैं मुर्दे की नाई लोगों के मन से बिसर गया १२  
मैं टूटे बासन के समान हो गया हूँ ॥  
मैं ने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना १३  
चारों ओर भय ही भय है  
जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की  
तब मेरा प्राण लेने की युक्ति की ॥  
पर हे यहोवा मैं ने तो तुम्हीं पर भरोसा रक्खा है १४  
मैं ने कहा कि तू मेरा परमेश्वर है ॥  
मेरे दिन<sup>३</sup> तेरे हाथ में हैं १५  
तू मुझे मेरे शत्रुओं के हाथ से और मेरे पीछे  
पड़नेहारों से बचा ॥  
अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका १६  
अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर ॥  
हे यहोवा मेरी आशा टूटने न पाए क्योंकि मैं ने १७  
तुम्हें पुकारा है  
दुष्टों की आशा टूटे और वे अधालोक में चुपचाप  
पड़े रहें ॥  
जां अहंकार और अपमान से १८  
धर्मी की निन्दा करते हैं  
उन के भूठ बोलनेहारों मुह बन्द किये जाएं ॥  
आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तू ने १९  
अपने डरवैयों के लिये रख छोड़ी,  
और अपने शरणागतों के लिये मनुष्यों के साम्हने  
प्रगट भी की है ॥  
तू उन्हें दर्शन देने के गुप्तस्थान में मनुष्यों की २०  
बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा  
तू उन को अपने मण्डप में भगड़े रगड़े से छिपा  
रखेगा ॥  
यहोवा धन्य है २१  
क्योंकि उस ने मुझ गढ़वाल नगर में रखकर मुझ  
पर अद्भुत करुणा की है ॥  
मैं ने तो घबराकर कहा था कि मैं यहोवा की २२  
दृष्टि से दूर हो गया  
तौभी जब मैं ने तेरी दोहाई दी तब तू ने मेरी  
गिः गिःहाट को सुना ॥

(१) मूल में महिमा ।

(२) मूल में मेरे पाँवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है ।

(३) मूल में समय ।

- २३ हे यहोवा के सब भक्तो उस से प्रेम रखो,  
यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता,  
पर जो अहंकार करता है उस को वह भली भांति  
बदला देता है ॥
- २४ हे यहोवा के सब आशा रखनेहारो  
हियाब बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें ॥  
दाऊद का । मस्कील ।

**३२. क्या ही धन्य है वह जिस का  
अपराध क्षमा किया गया और**

- जिस का पाप ढांपा गया हो ॥
- २ क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिस के अधर्म  
का यहोवा लेखा न ले  
और उस के आत्मा में कपट न हो ॥
- ३ जब लों मैं चुप रहा  
तब लों दिन भर चीखते चीखते मेरी हड्डियों में  
धुन लगा रहा ॥
- ४ क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा  
और मेरी तरावट धूप काल की सी भुराइट बनती  
गई । सेला ॥
- ५ जब मैं ने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और  
अपना अधर्म न छिपाया  
और कहा कि मैं यहोवा के साम्हने अपने अप-  
राधों को मान लूंगा  
तब तू ने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया ।  
सेला ॥
- ६ इस कारण हर एक भक्त जब उस का पाप उस पर  
खुल जाए<sup>१</sup> तब तुझ से प्रार्थना करेगा  
जल की बड़ी बाढ़ हो तो हो पर निश्चय उस भक्त  
के पास न पहुंचेगी ॥
- ७ तू मेरे छिपने का स्थान है तू संकट से मेरी रक्षा  
करेगा  
तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत सुनवा-  
एगा<sup>२</sup> । सेला ॥
- ८ मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना  
हो उस में तेरी अगुवाई करूंगा  
मैं तुझ पर कृपादृष्टि करके<sup>३</sup> सम्मति दिया  
करूंगा ॥
- ९ बोड़े और खच्चर के समान न हो जो समझ  
नहीं रखते

(१) वा जब तू मिल सकता है ।

(२) मूल में तू मुझे छुटकारे के गीतों से बरेगा

(३) मूल में प्रांख लगाकर ।

उन की उमंग लगाम और बाग से रोकनी  
पड़ती है  
नहीं तो वे तेरे बश में नहीं आने के ॥  
दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी १०  
पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है सो कबूचा से  
धिरा रहेगा ॥  
हे धर्मियो यहोवा के कारण आनन्दित और ११  
मगन हो

और हे सब सीधे मनवालो जयजयकार करो ॥

**३३. हे धर्मियो यहोवा के कारण जय-  
जयकार करो**

- क्योंकि सीधे लोगों को स्तुति करनी सजती है ॥  
वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो २  
दस तारवाली सारङ्गी बजा बजाकर उस का भजन  
गाओ ॥  
उस के लिये नया गीत गाओ ३  
जयजयकार के साथ भली भांति बजाओ ॥  
क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है ४  
और उस का सारा काम सच्चाई से होता है ॥  
वह धर्म और न्याय पर प्रांति रखता है ५  
यहोवा की करुणा से पृथिवी भरपूर है ॥  
आकाशमण्डल यहोवा के वचन से बन गया ६  
और वह सारा गण उस के मुँह की सांस से  
बना ॥  
वह समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता ७  
वह गहरे सागर के अपने भण्डार में रखता है ॥  
सारी पृथिवी के लोग यहोवा से डरें ८  
जगत के सब निवासी उस का भय मानें ॥  
क्योंकि जब उस ने कहा तब हो गया ९  
जब उस ने आशा दी तब स्थिर हुआ ॥  
यहोवा अन्यजातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता १०  
वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल  
करता है ॥  
यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी ११  
उस के मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी लों बनी  
रहेगी ॥  
क्या ही धन्य है वह जाति जिस का परमेश्वर १२  
यहोवा है  
और वह समाज जिसे उस ने अपना निज भाग  
होने के लिये चुन लिया हो ॥  
यहोवा स्वर्ग से इष्टि करता १३  
वह सारे मनुष्यों को निहारता है ॥

- १४ अपने निवास के स्थान से  
वह पृथिवी के सब रहनेहारों को ताकता है ॥
- १५ बही है जो उन सबों के मन को गड़ता  
और उन के सब कामों को बूझ लेता है ॥
- १६ कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के  
कारण बच सके ।  
वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता ॥
- १७ षोड़ा बचाव के लिये व्यर्थ है  
वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा  
सकता ॥
- १८ देखो यहोवा की दृष्टि उस के डरवैयों पर  
और उन पर जो उस की करुणा की आशा रखते  
हैं बनी रहती है
- १९ कि वह उन के प्राण को मृत्यु से बचाए  
और अकाल के समय उन को जीता रखे ॥
- २० हम यहोवा का आसरा तकते आये हैं  
वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है ॥
- २१ हमारा हृदय उस के कारण आनन्दित होगा  
क्योंकि हम ने उस के पवित्र नाम का भरोसा  
रक्खा है ॥
- २२ हे यहोवा हम ने जो तेरी आशा रक्खी है  
इसलिये तेरी करुणा हम पर हो ॥

दाऊद का । जब वह अबीमेलैक के साम्हने बौरहा बना और  
अबीमेलैक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया ।

### ३४. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा

- उस की स्तुति निरन्तर मेरे मुख से होती रहेगी ॥
- २ मैं यहोवा पर धमण्ड करूंगा  
नम्र लोग यह सुनकर आनन्दित होंगे
- ३ मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो  
और आओ हम मिलकर उस के नाम को सराहें ॥
- ४ मैं यहोवा के पास गया तब उस ने मेरी सुन ली  
और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया ॥
- ५ जिन्हों ने उस की ओर दृष्टि की  
उन्हों ने ज्योति पाई  
और उन का मुंह कभी काला न होने पाया ॥
- ६ इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया  
और इस को इस के सारे कष्टों से छुड़ा लिया ॥
- ७ यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उस का दूत  
छावनी किये हुए  
उन को बचाता है ॥

फा० ६२

- परखकर<sup>२</sup> देखो कि यहोवा कैसा भला है  
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उस की शरण लेता है ॥
- ९ हे यहोवा के पवित्र लोगो उस का भय मानो  
क्योंकि उस के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं  
होती ॥
- जवान सिंहों को घटी हो और वे भूखे रह जाएँ १०  
पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की  
घटी न होवेगी ॥
- हे लड़को आओ मेरी सुनो ११  
मैं तुम को यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा  
कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता १२  
और दीर्घायु चाहता हो कि कुशल से रहे  
अपनी जीभ बुराई से गेक रख १३  
और अपने मुंह की चौकसी कर कि उस से छुल  
की बात न निकले ॥
- बुराई को छोड़ और भलाई कर १४  
मेल को हूँद और उस का पीछा न छोड़ ॥  
यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं १५  
और उस के कान भी उन की दोहाई की ओर  
लगे रहते हैं ॥
- यहोवा बुराई करनेहारों के विमुख रहता है १६  
कि उन का नाम<sup>२</sup> पृथिवी पर से मिटा डाले ॥  
लोग दोहाई देते और यहोवा सुनता १७  
और उन को सारी विपत्तियों से छुड़ाता है ॥
- यहोवा टूटे मनवालों के समीप रहता है १८  
और पिसे दुष्टों का उद्धार करता है ॥
- धर्मों पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं १९  
पर यहोवा उस को उन सब से छुड़ाता है ।  
वह उस की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है २०  
सो उन में से एक भी टूटने नहीं पाती ॥
- दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा पड़ेगा २१  
और धर्मों के बैरी दोषी ठहरेंगे ॥
- यहोवा अपने दासों का प्राण बचा लेता है २२  
और जितने उस के शरणागत हैं उन में से कोई  
दोषी न ठहरेगा ॥

दाऊद का ।

### ३५. हे यहोवा जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं

- उन के साथ तू भी मुकद्दमा लड़  
जो मुझ से युद्ध करते हैं उन से तू युद्ध कर ॥

(१) मूल में चलकर ।

(२) मूल में स्वरण ।

- २ ढाल और फरी लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो ॥
- ३ और बर्छी को खींच और मेरा पीछा करनेहारों के सम्भने आकर उन को गेक और मुझ से कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ ॥
- ४ जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं उन की आशा टूट जाए और वे निरादर हों जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं सो पीछे हटाये जाए और उन का मुंह काला हो ॥
- ५ वे वायु से उड़ जानेहारी भूसी के समान हों और यहोवा का दूत उन्हें धकियाता जाए ॥
- ६ उन का मार्ग अभियारा और फिसलहा हो और यहोवा का दूत उन को खदेड़ता जाए ॥
- ७ क्योंकि अकारण उन्होंने ने मेरे लिये अपना जाल गढ़हे में लगाया अकारण ही उन्हें ने मेरा प्राण लेने के लिये गढ़हा खोदा है ॥
- ८ अचानक उन की विपत्ति हो और जो जाल उन्होंने ने लगाया है उसी में वे आप फंसे उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े ॥
- ९ तब मैं यहोवा के कारण जी से मगन हूंगा मैं उस के किये हुए उद्धार से हर्षित हूंगा ॥
- १० मेरी हड्डी हड्डी कहेंगी कि हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है जो दोन जन को बड़े बड़े बलवन्तों से बचाता है और छुट्टेरी से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है ॥
- ११ द्रोह करनेहारे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही लोग मुझ से पूछते हैं ॥
- १२ वे मुझ से भलाई के बदले बुराई करते हैं मैं बन्धुहीन हुआ हूँ ॥
- १३ मैं तो जब वे रोगी थे तब टाट पहिने रहा और उपवास कर करके दुःख उठाता था और मेरी प्रार्थना का फल मुझी को मिलेगा ॥
- १४ मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे संगी वा भाई हैं जैसा कोई माता के लिये विलाप करता हो वैसा ही मैं शोक का पहिरावा पहिने हुए भुका चलाता था ॥

(१) मूल में मेरी प्रार्थना मेरी गोद में लीट आयागी ।

- पर वे लोग जब मैं लंगड़ाने लगा तब आनन्दित १५ होकर इकट्ठे हुए नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था सो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए वे मुझे लगातार फाड़ते रहे ॥
- उन पाखण्डी भांडों की नाई जो पेट के लिये उप- १६ हास करते हैं वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं ॥
- हे प्रभु तू कब सो देखता रहेगा १७ इस विपत्ति से जिस में उन्होंने ने मुझे डाला है मुझ को छुड़ा जवान सिद्धों से मेरे जीव<sup>२</sup> को बचा ले ॥
- तब मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा १८ बहुतेरे लोगों के बीच मैं तेरी स्तुति करूंगा ॥
- मेरे भूठ बोलनेहारे शत्रु मेरे विरुद्ध आनन्द न करने १९ पाएँ जो अकारण मेरे बैरी हैं सो आपत में नैन से सैन न करने पाएँ ॥
- क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते २० पर देश में जो चुपचाप रहते हैं उन के विरुद्ध छल की कल्पनाएँ करते हैं ॥
- और उन्होंने ने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा २१ आहा आहा हम ने अपनी आंखों से देखा है ॥
- हे यहोवा तू ने तो देखा है सो चुप न रह २२ हे प्रभु मुझ से दूर न रह ॥
- उठ मेरे न्याय के लिये जाग २३ हे मेरे परमेश्वर हे मेरे प्रभु मेरा मुकद्दमा निपटाने के लिये आ ॥
- हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू जो धर्मी है इसलिये २४ मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनन्द करने न दे ॥
- वे मन में न कहने पाएँ कि आहा हमारी इच्छा २५ पूरी हुई हम उस को निगल गये हैं ॥
- जो मेरी हानि से आनन्दित हैं उन के मुंह लजा २६ के मारे एक साथ काले हों जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारते हैं सो लजा और अनादर से ठप जाएँ ॥
- जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं सो जयजयकार २७ और आनन्द करें

(२) मूल में मेरी एकली ।

- और निरन्तर कहते रहें कि यहोवा की बड़ाई हो जो  
अपने दास के कुरास से प्रसन्न होता है ॥
- २८ तब मेरे मुँह से तेरे धर्म की चर्चा होगी  
और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी ॥  
प्रधान बजानेहारों के लिये । यहोवा के दास  
दाऊद का ।
३६. दुष्ट जन के हृदय के भीतर अपराध  
की वाणी हुआ करती है  
परमेश्वर का भय उस के मन में नहीं आता ॥
- २ वह अपने अधर्म के खुलने और धिनीने ठहरने  
के विषय  
अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें  
विचारता है ॥
- ३ उस की बातें अनर्थ और छल की हैं  
उस ने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ  
उठाया है ॥
- ४ वह अपने बिल्लीने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना  
करता है  
वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है  
बुराई से वह हाथ नहीं उठाता ॥
- ५ हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है  
तेरी सच्चाई आकाशमण्डल तक पहुँची है ॥
- ६ तेरा धर्म ईश्वर के पर्वतों के समान है  
तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं  
हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा  
करता है ॥
- ७ हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है  
मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं ॥
- ८ वे तेरे भवन में के चिकने भोजन से तृप्त होंगे  
और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा ॥
- ९ क्योंकि जाँवन का सेता तेरे ही पास है  
तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे ।
- १० अपने जाननेहारों पर करुणा करता रह  
और अपने धर्म के काम सीधे मनवालों से  
करता रह ।
- ११ अहंकारों मुझ पर लात उठाने न पाए  
और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने  
पाए ॥
- १२ वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं  
वे ठकेल दिये गये और फिर उठ न सकेंगे ॥

(१) मल में उस की आँखों के साम्हने ।

दाऊद का ।

### ३७. कुकर्मियों के कारण मत कुछ कुटिल काम करनेहारों के विषय

डाह न कर ।

- क्योंकि वे घास की नाई भूट कट जाएंगे २  
और हरी घास की नाई मुर्झ जाएंगे ॥
- यहोवा पर भरोसा रख और भला कर ३  
देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाये रह ॥
- यहोवा को अपने सुख का मूल जान ४  
और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा ॥
- अपने मार्ग को चिन्ता यहोवा पर छोड़ ५  
और उस पर भरोसा रख वही पूरा करेगा ॥
- और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई ६  
और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई  
प्रगट करेगा ॥
- यहोवा के साम्हने चुपचाप रह और धीरज से उस ७  
का आसा रख  
उस के कारण न कुछ जिस के काम सुफल  
होते हैं  
और वह बुरी युक्तियों को निकालता है ॥
- केप से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे ८  
मत कुछ उस से बुराई ही निकलेगी ॥
- कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे ९  
और जो यहोवा की बात जोहते हैं सोई पृथिवी के  
अधिकारी होंगे ॥
- थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं १०  
और तू उस के स्थान को भली भाँति देखने पर भी  
उस को न पायेगा ॥
- पर नम्र लोग पृथिवी के अधिकारी होंगे ११  
और बड़ी शांति के कारण सुख मानेंगे ॥
- दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता १२  
और उस पर दाँत पीसता है ॥
- प्रभु उस पर हंसेगा १३  
क्योंकि वह देखता है कि उस का दिन आनेहारा  
है ॥
- दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाये हैं १४  
कि दीन दरिद्र को गिरा दें  
और सीधी चाल चलनेहारों को बध करे ॥
- उन की तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे १५  
और उन के धनुष तोड़े जाएंगे ॥
- धर्मी का थोड़ा सा १६  
बहुत से दुष्टों के डेर से उच्चम है ॥



- १७ क्योंकि दुष्टों की युजाएँ तो लोड़ी जाएंगी  
पर यहोवा धर्मियों की संभालता है ॥
- १८ यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि  
रखता है  
और उन का भाग सदा लो बना रहेगा ॥
- १९ विपत्ति के समय उन की आशा न टूटेगी  
और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे ॥
- २० दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे  
और यहोवा के शत्रु खेत की सुधरी घास की  
नाई नाश होंगे  
वे धूएँ की नाई बिलाय जाएंगे ॥
- २१ दुष्ट श्रेय लेता है और भरता नहीं  
पर धर्मी अनुग्रह करके दान देता है ॥
- २२ क्योंकि जो उस से आशिश पाते हैं सो तो पृथिवी  
के अधिकारी होंगे  
पर जो उस से स्थापित होते हैं सो नाश हो  
जाएंगे ॥
- २३ मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़  
होती है  
और उस के चलन से वह प्रसन्न रहता है ॥
- २४ चाह बह गिरे तौभी बिछा न दिया जाएगा  
क्योंकि यहोवा उस का हाथ थामे रहता है ॥
- २५ मैं लड़कपन से ले बुढ़ापे लो देखता आया हूँ  
पर न तो कभी धर्मी का त्याग हुआ  
और न उस के वंश को टुकड़े मांगते देखा है ॥
- २६ वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके श्रेय  
देता है  
और उस के वंश पर आशिश फलती रहती है ॥
- २७ बुढ़ाई को छोड़ और भलाई कर  
और तू सदा लो बना रहेगा ॥
- २८ क्योंकि यहोवा न्याय में प्रीति रखता  
और अपने भक्तों को न तजेगा  
उन की तो रक्षा सदा होती है  
पर दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा ॥
- २९ धर्मी लोग पृथिवी के अधिकारी होंगे  
और उस पर सदा बसे रहेंगे ॥
- ३० धर्मी अपने मुँह से बुद्धि की बातें करता  
और न्याय का बचन कहता है ॥
- ३१ उस के परमेश्वर की व्यवस्था उस के हृदय में  
बनी रहती है  
उस के पैर नहीं फिसलते ॥
- ३२ दुष्ट धर्मी की तक में रहता

- और उस के भार डालने का यत्न करता है ॥
- यहोवा उस को उस के हाथ में न छोड़ेगा ३३  
और जब उस का विचार किया जाए तब वह  
उसे दोषी न ठहराएगा ॥
- यहोवा की बाट जोहता रह और उस के मार्ग ३४  
पर बना रह  
और वह तुझे बढ़ाकर पृथिवी का अधिकारी  
कर देगा
- जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा ॥  
मैं ने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता ३५  
हुआ देखा  
जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज देश में फैले ॥  
पर किसी ने उधर से जाते हुए क्या देखा कि वह ३६  
है ही नहीं  
और मैं ने भी उसे दृढ़कर कहीं न पाया ॥  
खरे को तक और सीधे को देख रख ३७  
क्योंकि मेल से रहनेवाले पुंष का अन्तफल  
होगा ॥  
पर अपराधी एक साथ सत्यानाश किये ३८  
जाएंगे,  
दुष्टों का अन्तफल काटा जाएगा ॥  
धर्मियों का अचाव यहोवा की ओर से होता है ३९  
संरुत के समय वह उन का दृढ़ स्थान ठहरता है ॥  
और यहोवा उन की सहायता करके उन ४०  
को छुड़ाता है  
वह उन को दुष्टों से छुड़ाकर उन का उद्धार  
करता है  
इसलिये कि वे उस के शरणागत हैं ॥

दाऊद का मजन । स्मरण कराने के लिये ।

३८. हे यहोवा क्रोध करके मुझे न  
डाँट

न जलजलादृष्ट में आकर मेरी ताड़ना कर ॥

क्योंकि तेरे तीर मेरे बिध गये २

और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ ॥

तेरे रोष के कारण मेरे शरीर में कुछ आरोग्यता ३

नहीं

मेरे पाप के हेतु मेरी हड्डियों में कुछ चैन नहीं ॥

क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर बूष गया ४

और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो  
गये हैं ॥

- ५ मेरी मूढ़ता के कारण  
मेरे कोड़े खाने के भाव बसाते और सड़ते हैं ॥
- ६ मैं झुक गया मैं बहुत ही निहड़ गया  
दिन भर मैं शोक का पहिरावा पहिने हुए  
चलता हूँ ॥
- ७ क्योंकि मेरी कष्ट भर में जलन है  
और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं ॥
- ८ मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया  
मैं अपने मन की घबराहट से चिह्लाता हूँ
- ९ हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सन्मुख है  
और मेरा कराहना तुझ के सुन प्रदत्ता है ॥
- १० मेरा हृदय घड़कता है मेरा बल जाता रहा  
और मेरी आँखों में भी कुछ ज्योति नहीं  
रही ॥
- ११ मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग  
खड़े हैं  
मेरे कुटुम्बी भी दूर खड़े हो गये हैं ॥
- १२ और मेरे प्राण के गाहक फन्दे लगाते  
और मेरी हानि के यत्न करनेहारे दुष्टता की बात  
बोलते  
और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं ॥
- १३ पर मैं बाहरे की नाईं सुनता नहीं  
और गंगे के समान हूँ जो बोल नहीं सकता ॥
- १४ मैं ऐसे मनुष्य के सरीखा हूँ जो कुछ नहीं  
सुनता  
और जिस के मुँह से विषाद की कोई बात नहीं  
निकलती ॥
- १५ क्योंकि हे यहोवा मैं ने तेरी ही आशा लगाई है  
हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर तू ही उत्तर देगा ॥
- १६ मैं ने कहा ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनन्द  
करें  
क्योंकि जब मेरा पांव टल जाता तब वे मुझ पर  
बढ़ाई मारते हैं ॥
- १७ और मैं तो अब लंगडाने ही पर हूँ  
और लगातार पीड़ा ही भोगता रहता हूँ ॥
- १८ मैं तो अपने अधर्म के प्रगट करूँगा  
मैं अपने पाप के कारण खेदित रहूँगा ॥
- १९ पर मेरे शत्रु कुर्तिले और सामर्थी हैं  
और मेरे झूठ बोलनेहारे बैरी बहुत हो गये हैं ॥
- २० और जो भलाई के पलटे में बुराई करते हैं

- तो मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझ से  
विरोध करते हैं ॥
- हे यहोवा मुझे न छोड़ २१  
हे मेरे परमेश्वर मुझ से दूर न रह ॥  
हे यहोवा हे मेरे उद्धार २२  
मेरी सहायता के लिये कुर्तिले कर ॥  
यहतून प्रधान बजानेहारे के लिये । दाऊद का मजन ।  
२९. मैं ने कहा मैं अपनी चालचलन में  
चौकसी करूँगा  
न हो कि बचन से पाप करूँ  
जब लो दुष्ट मेरे साम्हने रहे  
तब लो मैं दाठी लगाये अपना मुँह बन्द किये  
रहूँगा ॥  
मैं मौन गहकर गंगा बन गया भली बात भी न २  
बोला  
और मेरी पीड़ा बढ़ती गई ॥  
मेरा हृदय जल उठा ३  
मेरे सोचते सोचते आग भड़क उठी  
तब मैं बोल उठा कि  
हे यहोवा मेरा अन्त मुझे जता ४  
और यह कि मेरे दिन कितने हैं  
जिस से मैं जान लूँ कि कैसा अनित्य हूँ ॥  
देख तू ने मेरे दिनों को चौबे भर के किये ५  
और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं  
सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हों तौ भी  
सांस ढहरे हैं । सेला ॥  
सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है ६  
सचमुच उस की घबराहट व्यर्थ है  
वह धन का संचय तो करता है पर नहीं जानता  
कि किस के भण्डार में पड़ेगा ॥  
और अब हे प्रभु मैं किस बात की बाट जोहूँ ७  
मेरी आशा तेरी आर लगी है ॥  
मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ८  
मूढ़ के मेरी नामधराई न करने दे ॥  
मैं गंगा बन गया और मुँह न खोला ९  
क्योंकि यह काम तू ने किया है ॥  
तू ने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे दूर कर १०  
क्योंकि मैं तेरे हाथ की मार से मिट चला ॥  
जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण दपट दपटकर ११  
ताड़ना देता है  
तब उस की मनभावनी वस्तुओं को कीड़े की  
नाईं नाश करता है

- १२ सचमुच सब मनुष्य सांस ठहरे हैं । तेला ॥  
हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दोहाई पर  
कान धर  
मेरा रोना सुनने से कान न मूंद  
क्योंकि मैं तेरे संग उपरी होकर रहता हूँ  
और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ ॥
- १३ उस से पहिले कि मैं जाता रहूँ और आगे को न  
रहूँ  
मेरी ओर से मुंह फेर कि मेरा मन हरा  
हो जाए ॥  
प्रधान बजानेहारों के लिये । दाऊद का भजन ।
४०. मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता  
रहा  
और उस ने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई  
सुनी ॥
- २ उस ने मुझे सत्यानाश के गड़हे और दलदल की  
कीच में से उबारा  
और मुझ को ढांग पर खड़ा करके मेरे पैरों को  
दढ़ दिया है ॥
- ३ और उस ने मुझे एक नया गीत सिखाया जो  
हमारे परमेश्वर की स्तुति का है  
बहुतेरे यह देखकर डरेंगे  
और यहोवा पर भरोसा रखेंगे ॥
- ४ क्या ही धन्य है वह पुरुष जिस ने यहोवा को  
अपना आधार माना हो  
और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने-  
हारों की ओर मुंह न फेरता हो ॥
- ५ हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू ने बहुत से काम  
किए हैं  
जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिये  
करता है सो बहुत सी हैं  
तेरे तुल्य कोई नहीं  
मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उन की चर्चा करूं  
पर उन की गिनती कुछ भी नहीं हो सकती ॥
- ६ मेलबलि और अन्नबलि से तू प्रसन्न नहीं होता  
तू ने मेरे कान खोदकर खोले हैं  
होमबलि और पापबलि तू ने नहीं चाहा ॥
- ७ तब मैं ने कहा देख मैं आया हूँ  
क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा  
हुआ है ॥
- ८ हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से  
प्रसन्न हूँ

- और तेरी व्यवस्था मेरे अन्तःकरण में बनी है ॥  
मैं ने बड़ी सभा में धर्म का शुभ समाचार ९  
प्रचारा है  
देख मैं ने अपना मुंह बन्द नहीं किया  
हे यहोवा तू इसे जानता है ॥  
मैं ने तेरा धर्म मन ही में नहीं रक्खा १०  
मैं ने तेरी सच्चाई और तेरे किये हुए उद्धार की  
चर्चा की है  
मैं ने तेरी कृपा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त  
नहीं रक्खी ॥  
हे यहोवा तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ११  
न हटा ले  
तेरी कृपा और सत्यता से निरन्तर मेरी रक्षा  
होती रहे ॥  
क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ १२  
मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं  
हाँट नहीं कर सकता  
वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं सो  
मेरे जी में जी नहीं रहा ॥  
हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा १३  
हे यहोवा मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ॥  
जो मेरे प्राण की खोज में हैं १४  
उन सभों की आशा टूट जाए और उन के मुंह  
काले हो  
जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं  
सो पीछे हटाये और निरादर किये जाएं ॥  
जो मुझ से आहा आहा कहते हैं १५  
सो अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो ॥  
जितने तुझे ढंढते हैं सो सब तेरे कारण हर्षित १६  
और आनन्दित हों  
जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं सो निरन्तर  
कहते रहें  
कि यहोवा की बड़ाई हो ॥  
मैं तो दीन और दरिद्र हूँ १७  
तौमी प्रभु मेरी चिन्ता करता है  
तू मेरा सहायक और छुड़ानेहार है  
हे मेरे परमेश्वर विलम्ब न कर ॥
- प्रधान बजानेहारों के लिये । दाऊद का भजन ।
४९. क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की  
सुधि रखता है  
विपत्ति के दिन यहोवा उस को बचाएगा ॥

- २ यद्वा उस की रक्षा करके उस को जीता रखेगा  
और वह पृथिवी पर भाग्यवान होगा  
तू उस को शत्रुओं की हथ्का पर न छोड़ ॥
- ३ जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब  
यद्वा उसे संभालेगा  
तू रोग में उस के सारे बिछौने को उलट कर  
ठीक करेगा ॥
- ४ मैं ने कहा है यद्वा मुझ पर अनुग्रह कर  
मुझ को खंगा कर मैं ने तो तेरे विरुद्ध पाप  
किया है ॥
- ५ मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई कहते हैं  
कि वह कब मरेगा और उस का नाम कब  
मिटेगा ॥
- ६ और जब कोई मुझे देखने आता है तब वह व्यर्थ  
बातें बरता है  
वह मन में अनर्थ बातें संचय करता है  
और बाहर जाकर उन की चर्चा करता है ॥
- ७ मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं

- वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना  
करते हैं ॥  
वे कहते हैं कि वह किसी ओछेपन का फल भोग रहा  
होगा  
और वह जो पड़ा है सो फिर न उठेगा ॥  
मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था और ९  
वह मेरी रोटी खाता था  
उस ने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है ॥  
पर हे यद्वा तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझ को १०  
उठा  
कि मैं उन को बदला दू ॥  
मेरा शत्रु जो मुझ पर जयजयकार करने नहीं पाता ११  
इस से मैं ने जान लिया है कि तू मुझ से प्रसन्न है ॥  
और मुझे तो तू खराई में संभालता १२  
और सदा के लिये अपने सन्मुख स्थिर करता है ॥  
इच्छाएल का परमेश्वर यद्वा १३  
सदा से सदा लों धन्य है  
आमेन फिर आमेन ॥

## दूसरा भाग ।

प्रधान बजानेहार के लिये । मस्कील । कोरवंधशियों का ।

४२. जैसे हरिणी नदी के जल के लिये  
हांफती है

- वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिये हांफता हूं ॥  
जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं  
मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा ॥
- ३ मेरे आसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं  
और लोग दिन भर मुझ से कहते रहते हैं कि  
तेरा परमेश्वर कहां रहा ॥
- ४ मैं भीड़ के संग जाया करता था  
मैं जयजयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव  
करनेहारी भीड़ के बीच परमेश्वर के भवन  
को घेरे घेरे जाया करता था

यह स्मरण करके मेरा जी उदास होता है<sup>२</sup> ॥

- हे मेरे जीव तू क्यों दया जाता ५  
और मेरे ऊपर क्यों कुढ़ता है  
परमेश्वर की आशा लगाये रह  
क्योंकि मैं उस के दर्शन से उद्धार पाकर  
फिर उस का धन्यवाद करने पाऊंगा ।  
हे मेरे परमेश्वर मेरा जीव दया जाता है ६  
इसलिये मैं यर्दन के पास के देश में  
और हेमोन के पहाड़ों और मिसार की पहाड़ी  
के पास रहते हुए तुझे स्मरण करता हूं ॥  
तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को ७  
पुकारता है  
तेरे सारे तरंगों और टेबों में मैं डूब गया हूं ॥  
पर दिन को यद्वा अपनी शक्ति और करुणा ८  
प्रगट करेगा

(१) मूल में मैं अपना जीव अपने ऊपर उंहेलता हूं ।

(२) मूल में मेरा जीव ।

और रात को भी मैं उस का गीत गाऊंगा  
और मेरे जीवनदाता ईश्वर से मेरी प्रार्थना होगी ॥  
९ मैं ईश्वर से जो मेरी दांग ठहरा है कहूंगा कि तू  
ने मुझे क्यों बिसरा दिया है  
मुझे शत्रु के अँधेरे के मारे क्यों शोक का पहि-  
रावा पहिने हुए चलना पड़ता है ॥  
१० मेरे सतानेहारे जो मुझे चिढ़ाते हैं उस से मेरी  
हड्डियाँ कटार से छिदी जाती हैं  
क्योंकि वे दिन भर मुझ से कहते रहते हैं कि तेरा  
परमेश्वर कहाँ रहा ॥  
११ हे मेरे जीव तू क्यों दया जाता  
और मेरे ऊपर क्यों क्रुद्धता है  
परमेश्वर की आशा लगाये रह क्योंकि मैं फिर उस  
का धन्यवाद करने पाऊँगा  
जो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है ॥  
४३. हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका और  
अमक्त जाति से मेरा मुकहमा लड़  
मुझ को छली और कुटिल पुरुष से बचा ॥  
२ क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा दृढ़ गढ़ है तू ने क्यों  
मुझे त्याग दिया है  
मुझे शत्रु के अँधेरे के मारे शोक का पहिरावा  
पहिने हुए क्यों चलना पड़ता है ॥  
३ अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को प्रगट कर  
कि वे मेरी अगुवाई करें  
वे मुझ को तेरे पवित्र पर्वत पर  
तेरे निवास में पहुँचाएँ ॥  
४ तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊँगा  
उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनन्द का सार है  
हे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर मैं बीया बजा  
बजाकर तेरा धन्यवाद करूँगा ॥  
५ हे मेरे जीव तू क्यों दया जाता  
और मेरे ऊपर क्यों क्रुद्धता है  
परमेश्वर की आशा लगाये रह क्योंकि मैं फिर  
उस का धन्यवाद करने पाऊँगा  
जो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है ॥  
प्रधान बजानेहारे के लिये । कोरहवँशियों का । मन्कोल ।  
४४. हे परमेश्वर हम ने अपने कानों से  
सुना हमारे बापदादों ने हम से  
वर्णन किया है  
कि तू ने उन के दिनों और प्राचीनकाल में क्या  
काम किया था ॥

तू ने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और २२  
उन को बसावा  
तू ने देश देश के लोगों को दुःख दिया और उन  
को फैला दिया ॥  
क्योंकि वे अपनी तलवार के बल से इस देश के ३  
अधिकारी न हुए  
और न अपने बाहुबल से  
पर तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न  
मुख के कारण जयवन्त हो गये  
क्योंकि तू उन को चाहता था ॥  
हे परमेश्वर तू ही हमारा राजा है ४४  
तू बाकूब के उद्धार की आशा दे ॥  
तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को टकेलकर गिरा ५  
देंगे  
तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को  
रीदेंगे ॥  
क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूँगा ६  
और न अपनी तलवार के बल से बचूँगा ॥  
तू ही ने हम को द्रोहियों से बचाया ७  
और हमारे बैरियों को निराश किया है ॥  
हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर जताते हैं ८  
और सदा लों तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे ।  
सेला ॥  
पर अब तू ने हम को त्याग दिया और हमारा ९  
अनादर किया है  
और हमारे दिलों के साथ पयान नहीं करता ॥  
तू हम को शत्रु के साम्हने से हटा देता है १०  
और हमारे बैरी मनमानते लूट लेते हैं ॥  
तू हमें कसाई की भेड़ों के समान कर देता है ११  
और हम को अन्य जातियों में तितर बितर  
करता है ॥  
तू अपनी प्रजा को संतमंत बेच डालता है १२  
उन के मोल से तू धनी नहीं होता ॥  
तू हमारे पड़ोसियों से हमारी नामधराई कराता है १३  
और हमारे चारों ओर के रहनेहारे हम से हँसी  
ठट्टा करते हैं ॥  
तू हम को अन्यजातियों के बीच उपमा ठहराता है १४  
और देश देश के लोग हमारे कारण सिर  
हिलाते हैं ॥  
दिन भर हमें अनादर सहना पड़ता है १५  
और उस कलंक लगाने और निन्दा करनेहारे  
के बोल से

- १६ जो शत्रु होकर बैर लेता है  
हमारे मुंह पर लज्जा छा गई है ॥
- १७ यह सब कुछ हम पर बीतने पर भी हम तुम्हें  
नहीं भूले  
न तेरी बाचा के विषय विश्वासघात किया है ॥
- १८ हमारा मन पीछे नहीं हटा  
न हमारे पैर तेरी बाट से फिर गये हैं ॥
- १९ तीभी तू ने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला  
और हम पर घोर अंधकार छावा दिया है ॥
- २० यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते  
वा किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते  
तो क्या परमेश्वर इस का विचार न करता  
बह तो मन की गुप्त बातों को जानता है ॥
- २१ पर हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते  
और कसाई की भेड़ों के समान ठहरते हैं ॥
- २२ हे प्रभु उठ क्यों सोता है  
जाग हम को सदा के लिये त्याग न दे ॥
- २४ तू क्यों अपना मुंह फेर लेता है  
और हमारा दुःख और दब जाना भूल जाता है ॥
- २५ हमारा जीव मिट्टी से लग गया  
हमारा पेट भूमि से सट गया है ॥
- २६ हमारी सहायता के लिये उठ खड़ा हो  
और अपनी करुणा के निमित्त हम को छुड़ा ले ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । शोराजीम में । कोरहवंशियों का ।  
मश्कील । प्रेम प्रीति का गीत ।

४५. मेरे मन में भली बात उभल रही है  
जो बात मैं ने राजा के विषय रची  
हे उस को सुनाता हूँ

मेरी जीभ चटक लेखक की लेखनी बनी है ॥

- २ तू मनुष्यों में सब से अति सुन्दर है  
तेरे दोषों में अनुग्रह भरा हुआ है  
इस कारण परमेश्वर ने तुम्हें सदा के लिये आशिष  
दी है ॥
- ३ हे वीर अपना विभव और प्रताप  
अपनी तलवार कटि पर बांध ॥
- ४ और अपने प्रताप के साथ सवार होकर  
सत्यता नम्रता और धर्म के निमित्त भाग्यवान हो  
और अपने दहिने हाथ से भयानक काम करता  
जा ॥

- तेरे तीर तो तेज हैं ५  
तेरे साम्हने देश देश के लोग गिरेंगे  
राजा के शत्रुओं के हृदय उन से छिड़ेंगे ॥  
हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना ६  
रहेगा  
तेरा राजदण्ड न्याय का है ॥  
तू ने धर्म में प्रीति और दुष्टता से बैर रक्खा है ७  
इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने  
तुम्हें को तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से  
अभिषेक किया है ॥  
तेरे सारे वस्त्र गन्धरस अगर और तज से सुगन्धित हैं ८  
तू हाथीदांत के मन्दिरों में तारखाले बाजों के  
कारण आनन्दित हुआ है ॥  
तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं ९  
तेरी दहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुन्दन से  
विभूषित खड़ी है ॥  
हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे १०  
अपने लोगों और अपने पिता के घर को  
भूल जा ॥  
और राजा तेरे रूप का चाह करेगा ११  
वह तो तेरा प्रभु है सो तू उसे दण्डवत् कर ॥  
सोर की राजकुमारी भी भेंट लिये हुए १२  
उपस्थित होगी  
प्रजा में के धनवान लोग तुम्हें प्रसन्न करने का  
यत्न करेंगे ॥  
राजकुमारी रनवास में अति शोभायमान है १३  
उस के वस्त्र में सोनहले बूटे कढ़े हुए हैं ।  
वह बूटेदार वस्त्र पहिने हुए राजा के पास पहुंचाई १४  
जाएगी ॥  
जो कुमारियां उस की सहेलियां हैं  
सो उस के पीछे पीछे चलती हुईं तेरे पास पहुंचाई  
जाएंगी ॥  
वे आनन्दित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी १५  
और राजा के मन्दिर में प्रवेश करेंगी ॥  
तेरे पितरों के बदले तेरे पुत्र होंगे १६  
जिन को तू सारी पृथिवी पर हाकिम ठहराएगा ॥  
मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से १७  
पीढ़ी लों होती रहेगी  
इस कारण देश देश के लोग सब सर्वदा तेरा  
घन्यवाद करते रहेंगे ॥

(१) भूल में छिपाता ।

(२) भूल में तेरा दहिना हाथ तुम्हें भयानक काम सिखाए ।

पा० ६३

(३) या तेरा सिंहासन परमेश्वर का है और ।

प्रधान बजानेहारे के लिये । कोरहवशियों का ।  
अलाभोत में । गीत ।

### ४६. परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है

संकट में सहायक जो अति सहज से मिलता है ॥  
इस कारण हम न डरेंगे चाहे पृथिवी उलट जाए  
और पहाड़ समुद्र के मध्य में डोलकर गिरें ॥  
चाहे समुद्र गरजे और फेनाए  
और पहाड़ उस के बढ़ने से कांप उठे । सेला ॥  
एक नदी है जिस की नहरों से परमेश्वर के  
नगर में  
परमप्रधान के पवित्र निवास में आनन्द  
होता है ॥

परमेश्वर उस नगर के बीच में है वह नहीं  
टलने का

पह फटते ही परमेश्वर उस की सहायता करता है ॥  
जाति जाति के लोग गरब उठे राज्य राज्य के  
लोग बगमगाने लगे

वह बोल उठा और पृथिवी पिघल गई ॥

सेनाओं का यहोवा हमारे संग है

याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है । सेला ॥

आओ यहोवा के महाकर्म देखो

कि उस ने पृथिवी पर कैसा उजाड़ किया है ॥

वह पृथिवी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है ॥

वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े  
करता

और रथों को आग में झोंक देता है ॥

रह जाओ और जान लो कि परमेश्वर में  
ही हूँ

मैं जातियों में महान् हूंगा

मैं पृथिवी भर में महान् हूंगा ॥

सेनाओं का यहोवा हमारे संग है

याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है ।  
सेला ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । कोरहवशियों का । भजन ।

### ४७. हे देश देश के सब लोगो तालियां बजाओ

ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिये जयजयकार  
करो ॥

क्योंकि यहोवा परमप्रधान और भवयोग्य है  
वह सारी पृथिवी के ऊपर महान् राजा है ॥

वह देश देश के लोगों को हमारे तले दबाता  
और अन्ध जातियों को हमारे पांव के नीचे कर  
देता है ॥

वह हमारे लिये उत्तम भाग निकालता है  
जो उस के प्रिय याकूब के बमखंड का कारण है । सेला ॥

परमेश्वर जयजयकार सहित

यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है ॥

परमेश्वर का भजन गाओ भजन गाओ

हमारे राजा का भजन गाओ भजन गाओ ॥

क्योंकि परमेश्वर सारी पृथिवी का राजा है

समझ बूझकर भजन गाओ ॥

परमेश्वर जाति जाति पर राजा हुआ है

परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान  
हुआ है ॥

राज्य राज्य के रईस इब्राहीम के परमेश्वर की प्रजा  
होकर इकट्ठे हुए हैं

क्योंकि पृथिवी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं  
वह तो अति महान् हुआ है ॥

गीत । भजन । कोरहवशियों का ।

### ४८. हमारे परमेश्वर के नगर में और उस के पवित्र पर्वत पर

यहोवा महान् और स्तुति के अति योग्य है ॥

सियोन पर्वत ऊंचाई में सुन्दर और सारी पृथिवी  
के हर्ष का कारण

राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे पर है ॥

परमेश्वर उस के महलों में ऊंचा गढ़ बना  
गया है ॥

देखो राजा लोग इकट्ठे हुए

वे एक संग आगे बढ़ गये ॥

उन्होंने आप देखा और देखते ही विस्मित हुए

वे घबराकर भाग गये ॥

वहीं कपकपी ने उन को पकड़ा

और जननेहारी ली की सी पीड़ें उन्हें उठीं ॥

तू पुरबाई से

तर्शाश के जहाजों को तोड़ डालता है ॥

सेनाओं के यहोवा के नगर में

अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हम ने सुना था  
वैसा देखा भी है

परमेश्वर उस को सदा दृढ़ रखेगा । सेला ॥

हे परमेश्वर हम ने तेरे मन्दिर के भीतर

तेरी करुणा पर ध्यान किया है ॥

हे परमेश्वर तेरे नाम के योग्य

- तेरी सृष्टि पृथिवी की छोर लों होती है  
तेरा दहिना हाथ धर्म से भरा है ॥  
११ तेरे न्याय के कामों के कारण  
सिन्धुन पर्वत आनन्द करे  
और बहुदा के नगर<sup>१</sup> मगन हों ॥  
१२ सिन्धुन के चारों ओर चलो और उस की परि-  
क्रमा करो  
उस के गुम्मतों के गिन लो ॥  
१३ उस की शहरपनाह पर मन लगाओ उस के  
महलों को ध्यान से देखो  
कि तुम आनेहारी पीढ़ी के लोगों से इस बात  
का वर्णन कर सको ॥  
१४ क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर  
रहेगा  
वह मृत्यु लों हमारी अगुवाई करेगा ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये कोरहवंशियों का भजन ।

४६ हे देश देश के सब लोगो यह सुनो  
हे संसार के सब निवासियो

- २ क्या बड़े क्या छोटे  
क्या धनी क्या दरिद्र कान लगाओ ।  
३ मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी  
और मेरे मन की बातें समझ की होंगी ॥  
४ मैं नीतिबचन की ओर अपना कान लगाऊंगा  
मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात खोलकर  
कहूंगा ।  
५ विपत्ति के दिनों में जब मैं अपने अड़ंगा  
मारनेहारों की बुराइयों में धरूं  
तब मैं क्यों डरूं  
६ जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते  
और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं  
७ उन में से कोई अपने भाई के किसी भाति छुड़ा  
नहीं सकता ।  
न परमेश्वर को उस की सन्ती प्रायश्चित्त में कुछ  
दे सकता है ॥  
८ क्योंकि उन के प्राण की छुड़ीती भारी है  
यहां लो कि वह कभी न मिलेगी ॥  
९ कोई ऐसा नहीं जो सदा जीता रहे  
बा उस को सदन न पड़े ॥  
१० क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं

(१) मूल में वैदिया ।

- और मूर्ख और पशु सभीसे मनुष्य भी दोनों नाश  
होते हैं  
और अपनी संपत्ति औरों के लिये छोड़ जाते हैं ॥  
वे मन ही मन यह सोचते हैं कि हमारे घर सदा ११  
ठहरेंगे  
और हमारे निवास पीढ़ी से पीढ़ी लों बने रहेंगे  
इसलिये वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने  
अपने नाम पर रखते हैं ॥  
पर मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी ठहरने का नहीं १२  
वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं ॥  
उन की यह चाल उन की मूर्खता है १३  
तौमी जो उन के पीछे आते हैं सो उन की बात से  
प्रसन्न होते हैं । सेला ॥  
वे अधोलोक की मानो मेड़ बर्कारियां ठहरावे १४  
गये हैं  
मृत्यु उन की चरानेहारी ठहरी  
और बिहान को सींचे लोग उन पर प्रभुता करेंगे  
और उन का रूप अधोलोकन में मिटता जाएगा  
और उस का कोई आधार न रहेगा ॥  
परन्तु परमेश्वर मुझ को अधोलोक के बश से छुड़ा १५  
लेगा  
वह तो मुझे रख लेगा । सेला ॥  
जब कोई धनी होए और उस के घर का विभव १६  
बढ़ जाए  
तब तू न डरना ॥  
क्योंकि वह मरने के समय कुछ भी न ले जाएगा १७  
न उस का विभव उस के साथ कबर में जाएगा ॥  
चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य गिने १८  
( जब तू अपनी भलाई करता है तब तो लोग  
तेरी प्रशंसा करते हैं )  
तौमी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया १९  
जाएगा  
जो कभी उजियाला न देखेंगे ॥  
मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो पर समझ न २०  
रखे  
तब पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं ॥

भासाप का भजन ।

- ५० ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है  
और उदयाचल से ले अस्ताचल  
लों पृथ्वी के लोगों को बुलाया है ॥



- २ सिन्धुन से जो परम सुन्दर है  
परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है ॥
- ३ हमारा परमेश्वर आएगा और चुप न  
रहेगा  
उस के आगे आगे आग करती आएगी  
और उस के चारों ओर आंधी चलेगी ॥
- ४ वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिये  
ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा  
कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने  
बलिदान चढ़ा कर मुझ से वाचा बांधी है ॥
- ५ और स्वर्ग उस के धर्मी होने का प्रचार करेगा  
परमेश्वर तो आप ही न्यायी है । संला ॥  
हे मेरी प्रजा सुन मैं बोलता हूँ  
हे इस्त्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ  
परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ ॥
- ६ मैं तुझ पर तेरे मेलबलियों के विषय दोष नहीं  
लगाता  
तेरे होमबाल तो नित्य मेरे लिये चढ़ते हैं ॥  
मैं न तो तेरे घर से बैल  
न तेरे पशुशालों से बकरे ले लूंगा ॥
- ७ क्योंकि वन के सारे जीवजन्तु  
और हजारों पहाड़ों के ढोर मेरे ही हैं ॥  
पहाड़ों के सब पंछियों को मैं जानता हूँ  
और मैदान के चलने फिरनेहारे मरे ही हैं ॥
- ८ यदि मैं भूखा होता तो तुझ से न कहता  
क्योंकि जगत् और जो कुछ उस में है सो  
मेरा है ॥
- ९ क्या मैं बैलों का मांस खाऊँ  
वा बकरों का लोहू पीऊँ ॥
- १० परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा  
और परमप्रधान के लिये अपनी मजतें पूरी कर  
और संकट के दिन मुझे पुकार  
मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा और तू मेरी महिमा करने  
पाएगा ॥
- ११ पर दुष्ट से परमेश्वर कहता है  
तुम्हें मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम  
तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है ॥
- १२ तू तो शिक्षा से नैर करता  
और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है ॥
- १३ जब तू ने चोर को देखा तब उस की संगति से  
प्रसन्न हुआ  
और परस्त्रीगात्रियों के साथ भागी हुआ ।

- तू ने अपना मुह बुराई करने के लिये खोला १९  
और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है ॥
- तू वैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता २०  
और अपने सगे भाई की चुगली खाता है ॥
- यह काम तू ने किया और मैं चुप रहा २१  
मैं तू ने समझ लिया कि परमेश्वर बिलकुल मेरे  
समान है  
पर मैं तुम्हें समझाऊँगा और तेरी आंखों के  
साम्हने सब कुछ अलग अलग दिखाऊँगा ॥  
हे ईश्वर के बिसरानेहारे यह बात बिचारो २२  
न हो एक मैं तुम्हें फाड़ डालूँ और कोई छुड़ाने-  
हारा न हूँ ॥  
धन्यवाद के बलिदान का चढ़ानेहारा मेरी २३  
महिमा करता है  
और मार्ग के सुधारनेहारे को  
मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊँगा ॥  
प्रधान बजानेहारे के लिये । दाऊद का भजन जब नातान  
नबी उस के पास इसलिये आया कि दाऊद  
बतशेबा के पास गया था ।

५९. हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार  
मुझ पर अनुग्रह कर

- अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे ॥  
मुझे भली भाँति धोकर मेरा अधर्म दूर कर २  
और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर ॥  
मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ ३  
और मेरा पाप निरन्तर मेरी दृष्टि में रहता है ॥  
मैं ने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया ४  
और जो तेरे लेखे बुरा है वही किया है  
सो तू बोलने में धर्मी  
और न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा ॥  
देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ ५  
और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा ॥  
देख तू हृदय की सचाई से प्रसन्न होता है ६  
और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा ॥  
जूफा के द्वारा मेरा पाप दूर कर और मैं शुद्ध हो ७  
जाऊँगा  
मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूँगा ॥  
मुझे हर्ष और आनन्द की बातें सुना ८  
तब जो हृदयियाँ तू ने तोड़ डालीं सो मगन हो  
जाएँगी ॥

(१) मूल में पुस्त स्थान ।

- ९ अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर  
और मेरे सारे अधर्मों के कामों को मिटा ॥
- १० हे परमेश्वर मेरे लिये शुद्ध मन सिरज  
और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नये सिरों से उपजा ॥
- ११ मुझे अपने साम्हने से निकाल न दे  
और अपने पवित्र आत्मा को मुझ से न ले ले ॥
- १२ अपने किये हुए उदार का हर्ष मुझे फेर दे  
और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ॥
- १३ तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग बताऊंगा,  
और पापी तेरी ओर फिरेगे ॥
- १४ हे परमेश्वर हे मेरे उदार कर्सा परमेश्वर मुझे खून  
से छुड़ा,  
मैं तेरे धर्म का जयजयकार करूंगा ॥
- १५ हे प्रभु मेरा मुह खोल  
तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा
- १६ तू मेलबलि से प्रसन्न नहीं होता नहीं तों मैं देता,  
होमबलि को भी तू नहीं चाहता ॥
- १७ टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है  
हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ  
नहीं जानता ॥
- १८ प्रसन्न होकर सिथ्योन की भलाई कर  
यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना ॥
- १९ तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात् सर्वांग  
पशुओं के होमबलि से प्रसन्न होगा,  
तब लोग तेरी बेदी पर बैल चढ़ाएंगे ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । मस्कील । दाऊद था । जब  
दोषण एदीमी ने आकर शाऊल से कहा कि दाऊद  
अहीमेलक के घर में गया था ।

**५२. हे** वीर तू बुराई करने पर क्यों बड़ाई  
मारता है

- ईश्वर की करुणा तो लगातार बनी रहती है ॥
- २ तेरी जीभ दुष्टता गढ़ती है  
सान धरे हुए छुरे की नाई वह छल का काम  
करती है ॥
- ३ तू भलाई से बढ़कर बुराई में  
और धर्म की बात से बढ़कर भूठ में प्रीति रखता  
है । सेला ॥
- ४ हे छली जीभवाले  
तू सब विनाश करनेवाले वचनों में प्रीति रखता  
है ॥
- ५ निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिये नाश कर देगा

- वह तुझ को पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा  
और जीवन के लोक से भी उखाड़ डालेगा । सेला ॥
- तब धर्मी लोग देखकर हरेगे ६  
और यह कहकर उस पर हँसेंगे कि  
देखो यह वही पुरुष है जिस ने परमेश्वर को ७  
अपना आधार नहीं माना  
पर अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था  
और अपने को दुष्टता में हड़ करता था ॥  
पर मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष ८  
के समान हूँ  
मैं ने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिये  
भरोसा रक्खा है ॥  
मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा इसलिये कि ९  
तू ने काम किया है  
और तेरे भक्तों के साम्हने तेरे नाम की बाट जोड़ूंगा  
क्योंकि वह उत्तम है ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । महलत में । दाऊद  
का मस्कील ।

**५३. मूढ़** ने अपने मन में कहा है कि  
परमेश्वर है ही नहीं

- वे बिगड़ गये वे कुटिलता के धिनीने काम करते हैं  
सुकर्मी कोई नहीं ॥
- परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों को निहारा है २  
कि देखे कोई बुद्धि से चलता  
वा परमेश्वर को पूछता है कि नहीं ॥  
वे सब के सब हट गये सब एक साथ बिगड़ गये ३  
कोई सुकर्मी नहीं एक भी नहीं ॥  
क्या अनर्थकारी कुछ ज्ञान नहीं रखते ४  
वे मेरे लोगों को रोटी जानकर खा जाते हैं  
और परमेश्वर का नाम नहीं लेते ॥  
वहाँ वे भयभीत हुए जहाँ कुछ भय का कारण ५  
न था  
क्योंकि जो तुझ छावनी करके घेरते थे उन की दृष्टियों  
को उस ने छितरा दिया है  
परमेश्वर ने जो उन्हें निकम्मा ठहराया है इस लिये  
तू ने उन की आशा तोड़ी है ॥  
भला हो कि इस्राएल का पूरा उदार सिथोन से ६  
निकले  
जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा  
ले आएगा  
तब याकूब मगन और इस्राएल आनन्दित होगा ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । दाऊद का मस्कील तारवाले  
बाजों के साथ । जब जीपियों में आकर शाऊल से कहा  
क्या दाऊद हमारे बीच में छिपा नहीं रहता ।

५४. हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा  
उद्धार कर

और अपने पराक्रम से मेरा न्याय चुका ॥

हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन

मेरे मुंह के बचनों की ओर कान लगा ॥

क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे

और बलात्कारी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं ।

वे परमेश्वर को अपने साम्हने नहीं जानते ।

सेला ॥

देखो परमेश्वरं मेरा सहायक है

प्रभु मेरे संभालनेहारों में का है ॥

वह मेरे द्रोहियों की बुराई उन्हीं पर लौटा देगा

हे परमेश्वर अपनी सन्चाई के कारण उन्हें विनाश  
कर ॥

मैं तुम्हें स्वेच्छाबलि चढ़ाऊंगा

हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि  
वह उत्तम है ॥

क्योंकि उस ने मुझे सारे कष्ट से छुड़ाया है

और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके सन्तुष्ट हुआ हूँ ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । तारवाले बाजों के साथ ।

दाऊद का मस्कील ।

५५. हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान  
लगा,

और मेरी गिड़गिड़ाहट से दूर न रह ॥

मेरी ओर ध्यान देकर मेरी सुन लो

मैं चिन्ता के मारे छुटपटाता और विकल रहता  
हूँ ॥

क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव करते  
हैं

कि वे मुझ से अनर्थ काम करते

और कोप करके मुझे सताते हैं ॥

मेरा मन संकट में है

और मृत्यु का भय मुझ में समाया है ॥

भय और कपकपी ने मुझे पकड़ा

और मेरे रीए खड़े हो गये हैं ॥

और मैं ने कहा यदि मेरे कबूतर के से बंख होते  
तो मैं उड़ जाता और ठिकाना पाता ॥

देखो मैं दूर उड़ते उड़ते

जगल में बसेरा लेता । सेला ॥

मैं प्रचण्ड बयार और झांधी से भाग कर  
शरणा लेता ॥

हे प्रभु उन को सत्यानाश कर और उन की भाषा  
में गड़बड़ डाल

क्योंकि मैं ने नगर में उपद्रव और भगड़ा देखा है ॥

रात दिन वे उस की शहरपनाह पर चढ़कर चारों  
ओर घूमते हैं

और उस के भीतर अनर्थ काम और उत्पन्न होता  
है ॥

उस के भीतर दुष्टता हो रही है

और अंधेर और छल उस के चौक से दूर नहीं  
होते ॥

जां मेरी नामधराई करता है सो शत्रु नहीं है

नहीं तो मैं सह सकता

जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है सो मेरा बैरी  
नहीं है

नहीं तो मैं उस से छिप जाता ॥

पर तू ही जो मेरी बराबरी का मनुष्य

मेरा परममित्र और मेरी जान पहचान का था ॥

हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बात  
करते थे

हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे ॥

वे उजड़ जाए,

वे जीते जी अधोलोक में जाएं,

क्योंकि उन के घर और मन दोनों में बुराईयां  
होती हैं ॥

मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा

और यहोवा मेरा उद्धार करेगा ॥

सांभ को भोर को दोपहर को तीनों बेला मैं ध्यान  
करूंगा और कहूंगा

और वह मेरी सुनेगा ॥

जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उस से उस ने मुझे  
कुशल के साथ बचा लिया है

उन्हो ने तो बहुतों को संग लेकर मेरा साम्हना  
किया था ॥

ईश्वर सुनकर उन को उचर देगा

वह तो आदि से बिराजमान है । सेला ॥

उन की दशा कभी बदलती नहीं

- और वे परमेश्वर का भय नहीं मानते ॥  
 २० उस ने अपने मेल रखनेहारों पर भी हाथ छोड़ा  
 उस ने अपनी बाधा को तोड़ दिया है ॥  
 २१ उस के मुंह की बातें जो मन्थन सी चिकनी थीं  
 पर उस के मन का विचार लड़ाई का था  
 उस के वचन तेल से नरम तो थे  
 पर नंगी तलवार से थे ॥  
 २२ जो भार बहोवा ने तुझ पर रक्खा है सो उसी पर  
 डाल दे और वह तुझे संभालेगा  
 वह धर्मों को कभी टलने न देगा ॥  
 २३ पर हे परमेश्वर तू उन लोगों को बिनाश के गड़हे  
 में गिरा देगा ॥  
 हत्यारे और छुली मनुष्य अपनी आधी आयु लो  
 जीते न रहेंगे  
 सो मैं तुझ पर भरोसा रख्खे रहूंगा ॥  
 प्रधान बजानेहारों के लिए । योनितेलेब्रह्महोकीम १ में । दाऊद  
 का भित्ताम । जब पलिरितियों ने उस को गत  
 नगर में पकड़ा था ।
- ५६. हे** परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि  
 मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं  
 वे लगातार लड़ते हुए मुझ पर अंधेर करते हैं ॥  
 २ मेरे द्रोही लगातार मुझे निगलने को चाहते हैं  
 बहुत से लोग अभिमान करके मुझ से लड़ते हैं ॥  
 ३ जिस समय मैं डरूं  
 उसी समय मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा ॥  
 ४ परमेश्वर की सहायता से मैं उस के वचन की  
 प्रशंसा करूंगा  
 परमेश्वर पर मैं ने भरोसा रक्खा है मैं न डरूंगा  
 कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है ॥  
 ५ वे लोग लगातार मेरे वचनों का उलटा अर्थ  
 लगाते हैं  
 उन की सारी कल्पनाएं मेरी ही हानि करने की  
 होती हैं ॥  
 ६ वे इकट्ठे होते और छिपकर बैठते हैं  
 वे आप मेरा पीछा करते हैं  
 और मेरे प्राण की घात में ताक लगाये हुए बैठे  
 रहते हैं ॥  
 ७ क्या वे अनर्थ काम करने पर बचेंगे  
 हे परमेश्वर अपने कोम से देश देश के लोगों को  
 गिरा दे ॥  
 ८ मेरे मारे मारे फिरने का कृतान्त तू ने लिख रक्खा है

(१) अर्थात् दूरदेशियों की मौनी कबूतरी ।

- तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख  
 क्या उन की चर्चारे तेरी पुस्तक में नहीं है ॥  
 जिस समय मैं पुकारूं उसी समय मेरे शत्रु उलटे १  
 फिरेंगे  
 यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है ॥  
 परमेश्वर की सहायता से मैं उस के वचन की २०  
 प्रशंसा करूंगा,  
 यहोवा की सहायता से मैं उस के वचन की  
 प्रशंसा करूंगा ॥  
 मैं ने परमेश्वर पर भरोसा रक्खा है मैं न डरूंगा २१  
 मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ॥  
 हे परमेश्वर तेरी मज्जतों का भार मुझ पर बना है २२  
 सो मैं तुझ को धन्यवादबलि चढ़ाऊंगा ॥  
 क्योंकि तू ने मुझ को मृत्यु से बचाया है  
 क्या तू मेरे पैरों को भी फिसलने से न बचाएगा  
 कि मैं जीवनदायक उजियाले में अपने को ईश्वर  
 के साम्हने जानकर चलू फिरू ॥

प्रधान बजानेहारों के लिए । अलतराहेतर में दाऊद का ।  
 भित्ताम । जब वह शाऊल से भागकर गुफा में  
 छिप गया था ।

- ५७. हे** परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर  
 मुझ पर अनुग्रह कर  
 क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं  
 और जब लों ये बलाएं निकल न जाएं  
 तब लों मैं तेरे पंखों के तले शरण लिये रहूंगा ॥  
 मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा २  
 उस ईश्वर को जो मेरे लिये सब कुछ सिद्ध  
 करता है ॥  
 ईश्वर स्वर्ग से भेज कर मुझे बचा लेगा  
 जब मेरा निगलनेहारा निन्दा कर रहा हो । सेला ॥  
 तब परमेश्वर अपनी करुणा और सन्चाई प्रगट  
 करेगा ॥  
 मेरा प्राण सिंहों के बीच है ४  
 मुझे जलते हुआओं के बीच लोटना पड़ता है  
 ऐसे मनुष्यों के बीच जिन के दांत बड़ी और  
 तीर हैं  
 और जिन की जीभ तेज तलवार है ॥  
 हे परमेश्वर स्वर्ग के ऊपर ऊंचा हो  
 तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो ॥  
 उन्हीं ने मेरे पैरों के लिये जाल लगाया  
 मेरा जीव ढपा हुआ है ६

(२) अर्थात् नारा न कर ।

- उन्हों ने मेरे लिये गढ़वा खोदा  
और आगही उस में गिर पड़े हैं । सेला ॥
- ७ ह परमेश्वर मेरा मन स्थिर है मेरा मन  
स्थिर है  
में गा गाकर भजन करूंगा ॥
- ८ हे मेरे आत्मा जाग हे सारंगी और बीणा  
जागो,  
में भी पह फटते जाग उठंगा ॥
- ९ हे प्रभु मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद  
करूंगा  
मैं राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन  
गाऊंगा ॥
- १० क्योंकि तेरी करुणा इतनी बड़ी है कि स्वर्ग लों  
पहुँचती  
और तेरी सच्चाई आकाशमण्डल तक है ॥
- ११ हे परमेश्वर स्वर्ग के ऊपर ऊँचा हो  
तेरी महिमा सारी पृथिवी के ऊपर हो ॥  
प्रधान बजानेहारे के लिए । अलतराहेत ४ दाऊद का । मित्ताम ।  
दाऊद का । मित्ताम ।
५८. हे मनुष्यों धर्म की बात तो बोलनी  
चाहिये क्या तुम सचमुच चुप रहते  
क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो ॥
- १ नहीं तुम कुटिल काम मन से करते हो  
तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो ॥
- २ दुष्ट लोग जन्मते ही विराने हो जाते  
वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक  
जाते हैं ॥
- ४ उन में सर्प का सा विष है  
वे उस नाग के समान हैं जो सुनना नहीं चाहता  
और सपेरे कैसी ही निपुणता से क्यों न  
बाजीगरी करें  
तौभी उस की नहीं सुनता ॥
- ६ हे परमेश्वर उन के मुँह में से दांतों को तोड़  
हे यहोवा उन जबान सिंहीं की दाढ़ों को उखाड़  
डाल ॥
- ७ वे गलकर जल सरीखे हों जो बहकर चला  
जाता है  
जब वे अपने तीर चढ़ाएँ तब तीर मानो दो  
टुकड़े हो जाए ॥

(१) मूल में हे मेरी महिमा ।

(२) अर्थात् नाश न कर ।

(३) मूल में तुम अपने हाथों का उपद्रव देश में तौल देते हो ।

- वे घोष के समान हों जो गलकर जाता रहता है  
और स्त्री के गिरे हुए गर्भ सरीखे होकर  
उजियाले को कभी न देखें ॥
- उस से पहिले कि तुम्हारी हाँडियों में कांटों की  
आँच लगे  
वह जले बिन जले दोनों को आधी की नाई उड़ा  
ले जाएगा ॥
- धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनन्दित होगा ॥ १०  
वह अपने पाँव दुष्ट के लोहू में धोएगा ॥  
और मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिये ११  
फल तो है  
निश्चय परमेश्वर तो है जो पृथिवी पर न्याय  
करता है ॥
- प्रधान बजानेहारे के लिये । अलतराहेत ४ दाऊद का । मित्ताम ।  
जब शाऊल के भेजे हुए लोगों ने घर का पहरा दिया  
कि उस को मार डालें ।

५९. हे मेरे परमेश्वर मुझ को शुओं से  
बचा

- मुझे ऊँचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों  
से बचा ॥
- मुझ को अनर्थकारियों से बचा २  
और हत्यारों से मेरा उधार कर ॥  
क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं ३  
बलवन्त लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं ।  
हे यहोवा यह बिना मेरे किसी अपराध वा पाप के  
होता है ॥  
मेरे दोष के बिना वे दौड़कर लड़ने को तैयार हो ४  
जाते हैं  
मुझ से मिलने के लिये जाग उठ और यह देख ॥  
हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ५  
ह इस्त्राएल के परमेश्वर सब अन्यजातिवालों को  
दण्ड देने के लिये जाग  
किसी विश्वासघाती अनर्थकारी पर अनुग्रह न  
कर । सेला ॥  
वे लोग साँभ को लौटकर कुत्ते की नाई ६  
गुराते हैं  
और नगर के चारों ओर घूमते हैं ॥  
देख वे डकारत हैं ७  
उन के मुँह में तलवार हैं  
वे कहते हैं कि कौन सुनता है ॥

(४) अर्थात् नाश न कर ।

- ८ पर हे यहोवा तू उन पर हँसेगा  
तू सब अन्यजातिवालों को ढट्टों में उड़ाएगा ॥
- ९ उस के बल के कारण मैं तेरी ओर ताकता  
रहूंगा  
क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है ॥
- १० परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझ से मिलेगा  
परमेश्वर मेरे द्रोहियों के विषय मेरी इच्छा पूरी  
कर देगा १ ॥
- ११ उन्हें घात न कर न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए  
हे प्रभु हे हमारी ढाल  
अपनी शक्ति से उन्हें तित्तर बित्तर कर उन्हें  
देवा दे ॥
- १२ अपने मुँह के वचनों के  
और साप देने और भूठ बोलने के कारण  
वे अभिमान में फँसे हुए पकड़े जाएं ॥
- १३ जलजलाहट में आकर उन का अन्त कर उन का  
अन्त कर दे कि वे आगे को न रहें  
तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर  
बरन पृथिवी की छोर लों प्रभुता करता है ।  
सेला ॥
- १४ चाहे वे साँभ को लौटकर कुत्ते की नाईं गुर्राएँ  
और नगर के चारों ओर घूमें
- १५ और टुकड़े के लिये मारे मारे कि  
और तृप्त न होने पर रात भर वहीं ठहरे रहें
- १६ पर मैं तेरे सामर्थ्य का यरा गाऊंगा  
और भोर के तेरी करुणा का जयजयकार करूंगा  
क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़  
और संकट के समय मेरा शरणस्थान ठहरा है ॥
- १७ हे मेरे बल मैं तेरा भजन गाऊंगा  
क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा गढ़ और मेरा  
करुणामय परमेश्वर है ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । दाऊद का । मित्ताम । शराने-  
दूतर में । शिक्षादायक । जब वह अरमनहरैम और  
अरमसोबा से लड़ता था और योआब ने  
लौट कर लोन की तराई में पदोभियों में से  
बारह हजार पुरुष मार लिये ।

६०. हे परमेश्वर तू ने हम को त्याग दिया  
और हम को तोड़ डाला है  
तू कोपित तो हुआ फिर हम को ज्यों के त्यो  
कर दे ॥

(१) मूल में मेरे द्रोहियों को मुझे दिखाएगा ।

(२) अर्थात् साक्षी के सोतन ।

फा० ६४

- तू ने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है  
उस के दरारों को भर दे ३ क्योंकि वह डगमगा  
रही है ॥
- तू ने अपनी प्रजा को कठिन दुःख भुगताया  
तू ने हमें लड़खड़ी का दाखमधु पिलाया है ॥
- तू ने अपने डरवैयों को भरवा दिया है  
कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए । सेला ॥
- इसलिये कि तेरे प्रिय छुड़ाये जाएं  
तू अपने दहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले ॥
- परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है मैं प्रफुल्लित  
हूंगा  
मैं शकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को  
नपवाऊंगा
- गिलाद मेरा है मनश्शे भी मेरा है  
और एप्रैम मेरे सिर का टोप  
यहूदा मेरा राजदण्ड है ॥
- मोआब मेरे धोने का पात्र है  
मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा  
हे पलिश्त मेरे ही कारण जयजयकार कर ॥
- मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा  
एदोम लों मेरी अगुवाई किस ने की है ॥
- हे परमेश्वर क्या तू ने हम को त्याग नहीं दिया  
और हे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ पयान  
नहीं करता ॥
- द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर  
क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ  
होता है ॥
- परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे  
हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा ॥
- प्रधान बजानेहारों के लिये । तारवाले बाजे  
के साथ । दाऊद का ।

६१. हे परमेश्वर मेरा चिह्नाना सुन  
मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे ॥

- मूर्छा खाते समय मैं पृथिवी की छोर से भी तुझे  
पुकारूंगा  
जो चटान मेरे लिये ऊंची है उस पर मुझ को ले  
चल ॥
- क्योंकि तू मेरा शरणस्थान है  
और शत्रु से बचने के लिये दृढ़ गुम्मत है ॥
- मैं तेरे तंबू में युग युग रहूंगा

(३) मूल में चंगा कर ।

मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिये रहूंगा ।

सेला ॥

५ क्योंकि हे परमेश्वर तू ने मेरी मज्जतें सुनीं  
जो तेरे नाम के डरवैये हैं उन का सा भाग तू ने  
मुझे दिया है ॥

६ तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा  
उस के भरस पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे ॥

७ वह परमेश्वर के सन्मुख सदा बना रहेगा  
तू अपनी करुणा और सच्चाई को उस की रक्षा के  
लिये उहरा रख ॥

८ और मैं सदा लों तेरे नाम का भजन गा गाकर  
अपनी मज्जतें दिन दिन पूरी किया करूंगा ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । दाऊद का भजन ।  
यद्गुण को ।

**६२. सचमुच** मैं चुपचाप होकर परमेश्वर  
की आर मन लगाये हूँ

मेरा उद्धार उसी से होता है ॥

२ सचमुच वही मेरी चटान और मेरा उद्धार है  
वह मेरा गढ़ है मैं बहुत न डिगूंगा ॥

३ तुम कब लों एक पुरुष पर धावा करते रहोगे  
कि सब मिलकर उस का घात करो ।  
वह तो झुकी हुई भीत वा गिरते हुए बाड़े के  
समान है ॥

४ सचमुच वे उस को उस के ऊंचे पद से गिराने की  
सम्मति करते हैं

वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं

मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते  
हैं । सेला ॥

५ हे मेरे मन परमेश्वर के साम्हने चुपचाप रह  
क्योंकि मेरी आशा उसी से है ॥

६ सचमुच वही मेरी चटान और मेरा उद्धार है  
वह मेरा गढ़ है सो मैं न डिगूंगा ॥

७ मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमे-  
श्वर है

मेरी दृढ़ चटान और मेरा शरणस्थान परमेश्वर  
है ॥

८ हे लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो  
उस से अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो  
परमेश्वर हमारा शरणस्थान है । सेला ॥

९ सचमुच छोटे लोग तो सांस और बड़े लोग  
मिथ्या ही हैं

तौल में वे हलके निकलते हैं

वे सब के सब सांस से भी हलके हैं ॥

अंधेर करने पर भरोसा मत रखो

१०

और लूट पाट करने पर मत फूलो

चाहे धन संपत्ति बड़े तौभी उस पर मन न लगाना ॥

परमेश्वर ने एक बार कहा है

११

दो बार मैं ने यह सुना है

कि सामर्थ्य परमेश्वर का है ॥

और हे प्रभु करुणा भी तेरी है

१२

क्योंकि तू एक एक जन को उस के काम के अनुसार  
फल देता ॥

दाऊद का भजन । जब वह यहूदा के जंगल में था ।

**६३. हे** परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है मैं तुझे  
यत्न से दूँगा

सूखी और जल बिना ऊसर भूमि पर

मेरा मन तेरा प्यासा है मेरा शरीर तेरा अति

आभिलाषी है ॥

इस प्रकार से मैं ने पवित्रस्थान में तुझ को २  
ताका था

कि तेरा सामर्थ्य और महिमा निहाळं ॥

इस लिये कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है

३

मैं तेरी प्रशंसा करूंगा ॥

सो मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा

४

और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा ॥

मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त  
होगा

और मैं जयजयकार करके तेरी स्तुति करूंगा ॥

जब मैं बिलौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा

६

तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान  
करूंगा ॥

क्योंकि तू मेरा सहायक बना है

७

सो मैं तेरे पंखों की छाया में जयजयकार करूंगा ॥

मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है

८

और मुझे ता तू अपने दाहने हाथ से यांभ  
रखता है ॥

पर वे जो मेरे प्राण के खोजी हैं

९

सो पृथिवी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे ॥

वे तलवार से मारे जाएंगे

१०

और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे ॥

पर राजा परमेश्वर के कारण आनन्दित होगा

११

जो कोई ईश्वर की किरिया खाए सो बड़ाई करने  
पाएगा

पर झूठ बोलनेहारों का मुंह बन्द किया जाएगा ॥  
प्रधान बजानेहारों के लिये । दाऊद का भजन ।

**६४. हे** परमेश्वर जब मैं तेरी दोहाई दू  
तब मेरी सुन

शत्रु के उपजाये हुए भय के समय मेरे प्राण की  
रक्षा कर ॥

२ कुकर्मियों की गोष्ठी से

और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हां ॥

३ उन्हीं ने अपनी जीभ को तलवार की नाई तेज किया

और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है

४ कि छिपकर खरे मनुष्य को मारें

वे निडर होकर उस को अज्ञानक मारते भी हैं ॥

५ वे बुरे काम करने को हियाब बांधते हैं

वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं

और कहते हैं कि हम को कौन देखेगा ॥

६ वे कुटिलता की युक्तियां निकालते

और कहते हैं कि हम ने पक्की युक्ति खोजकर

निकाली है

एक एक का मन और हृदय अथाह है ॥

७ परन्तु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा

वे अज्ञानक घायल हो जाएंगे ॥

८ वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर

पड़ेंगे

जितने उन पर हृष्टि करेंगे सो सब अपने अपने

सिर हिलाएंगे ॥

९ और सारे मनुष्य भय खाएंगे

और परमेश्वर के कर्म का बखान करेंगे

और उस के काम पर ध्यान करेंगे ॥

१० धर्मी तो यहोवा के कारण आनन्दित होकर उस

का शरणागत होगा

और सब सीधे मनवाले बड़ाई करेंगे ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । दाऊद का भजन ।

गीत ।

**६५. हे** परमेश्वर सिन्धोन में तेरे साम्हने  
चुपचाप रहना ही स्तुति है

और तेरे लिये मज्जते पूरी की जाएंगी ॥

२ हे प्रार्थना के सुननेहारों

सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे ॥

३ अघर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं

हमारे अपराधों को तू दांप देगा ॥

क्या ही धन्य है वह जिस को तू चुनकर अपने ४  
समीप ले आए

कि वह तेरे आंगनों में वास करे  
हम तेरे भवन के अर्थात् तेरे पवित्र मन्दिर के  
उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे ॥

हे हमारे उद्धारकर्त्ता परमेश्वर ५

हे पृथिवी के सब दूर दूर देशों के  
और दूर के समुद्र पर के रहनेहारों के आधार

तू धर्म से किये हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा  
मुंह मांगा देगा ॥

६ तू पराक्रम का फेंटा कसे हुए

अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है ॥

७ तू समुद्र का महाशब्द उस की तरफों का महाशब्द

और देश देश के लोगों का कालाहल शान्त  
करता है ॥

८ सो दूर दूर देशों के रहनेहारों तेरे चिन्ह देखकर डर  
गये हैं

९ तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जयजयकार  
करता है ॥

१० तू भूमि की सुधि लेकर उस को सींचता है

तू उस को बहुत फलदायक करता है

परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है

११ तू पृथिवी को तैयार करके मनुष्यों के लिये अन्न को  
तैयार करता है ॥

१२ तू रेबारियों को भली भांति सींचता

और उन के बीच बीच की मिट्टी को बैठाता है

१३ तू भूमि को मेंह से नरम करता

और उस की उपज पर आशिष देता है ॥

१४ अपनी मलाई से भरे हुए बरस पर तू ने मानो ११  
मुकुट धर दिया है

तेरी लीकों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाये जाते हैं १२ ॥

१५ वे जंगल की चराइयों में पाये जाते हैं १२

और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं ॥

१६ चराइयां मेड़ बकरियों से भरी हुई १३

और तराइयां अन्न से ढंपी हुई हैं

१७ वे जयजयकार करतीं और गाती भी हैं ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । गीत । भजन ।

**६६. हे** सारी पृथिवी के लोगों परमेश्वर के  
लिये जयजयकार करो ॥

२ उस के नाम की महिमा का भजन गाओ २

उस की स्तुति करते हुए उस की महिमा करो ॥

(१) मूल में चिकनाहे टपकती है ।



- ३ परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक हैं  
तेरे महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी  
करेंगे ॥
- ४ सारी पृथिवी के लोग तुझे दण्डवत् करेंगे  
और तेरा भजन गाएंगे  
वे तेरे नाम का भजन गाएंगे । सेला ॥
- ५ आओ परमेश्वर के कामों को देखो  
वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग्य  
देख पड़ता है ॥
- ६ उस ने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला  
वे महानद में से पांच पांच उतरे  
वहां हम उस के कारण आनन्दित हों ॥
- ७ वह अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है  
और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है  
हठीले अपने सिर न उठाए । सेला ॥
- ८ हे देश देश के लोगों हमारे परमेश्वर को धन्य  
कहो  
और उस की स्तुति की धुनि सुनाओ ।  
वही है जो हम को जीते रखता है  
और हमारे पांच को टलने नहीं देता ॥
- ९ क्योंकि हे परमेश्वर तू ने हम को जांचा  
तू ने हमें चांदी की नाईं ताया था ॥
- १० तू ने हम को जाल में फंसाया  
और हमारी कटि पर भारी बोझ बांधा था ॥
- ११ तू ने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया  
हम आग और जल से होकर गये तो थे  
पर तू ने हम को उबार के सुख से भर दिया है ॥
- १२ मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा  
मैं उन मन्त्रों को तेरे लिये पूरी करूंगा  
जो मैं ने मुंह<sup>१</sup> खोलकर मानीं  
और संकट के समय कही थीं ॥
- १३ मैं तुझे मोटे पशुओं के होमबलि  
मेढों की चर्बी के धूप समेत चढ़ाऊंगा  
मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा । सेला ॥
- १४ हे परमेश्वर के सब ढरवैयो आकर सुनो  
मैं वर्णन करूंगा कि उस ने मेरे लिये क्या क्या  
किया है ॥
- १५ मैं ने उसी को पुकारा  
और उस का गुणानुवाद मुझ से हुआ ॥
- १६ यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता  
तो प्रभु मेरी न सुनता ॥

(१) मूल में होंठ ।

- परन्तु परमेश्वर ने सुना तो है १९  
उस ने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है ॥  
धन्य है परमेश्वर २०  
जिस ने न तो मेरी प्रार्थना सुनी अनसुनी की  
न मुझ से अपनी करुणा दूर कर दी है ॥  
प्रधान बजानेहारों के लिये । तारवाले बाजों के साथ ।  
भजन । गीत ।

### ६७. परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हम को आशिष दे

- वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए<sup>२</sup> ।  
सेला ॥  
जिस से तेरी गति पृथिवी पर २  
और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में  
जाना जाए ॥  
हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद ३  
करें  
देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें ॥  
राज्य राज्य के लोग आनन्द करें और जयजयकार ४  
करें  
क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से  
करेगा  
और पृथिवी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई  
करेगा ॥ सेला ॥  
हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें ५  
देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें ॥  
भूमि ने अपनी उपज दी है ६  
परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है सो हमें आशिष  
देगा ॥  
परमेश्वर हम को आशिष देगा ७  
और पृथिवी के दूर दूर देशों के सारे लोग उस का  
भय मानेंगे ॥  
प्रधान बजानेहारों के लिये । दाऊद का भजन ।

### ६८. परमेश्वर उठे उस के शत्रु तित्तर बित्तर हों

- और उस के बैरी उस के साम्हने से भाग जाएं ॥  
जैसा धुआं उड़ जाता है तैसे ही तू उन को उड़ा दे २  
जैसा मोम आग की आंच से गल जाता है  
वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर के दर्श से नाश हों ॥  
पर धर्मी आनन्दित हो वे परमेश्वर के साम्हने ३  
प्रफुल्लित हों

(२) मूल में हमारे साथ अपना मुख चमकाए ।

- वे आनन्द में भगन हों ॥  
 ४ परमेश्वर का गीत गाओ उस के नाम का भजन  
 गाओ  
 जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है उस के  
 लिये सड़क बनाओ  
 उस का नाम याह है सो तुम उस के साम्हने  
 प्रफुल्लित हो ॥  
 ५ परमेश्वर अपने पवित्र धाम में  
 बपमूओं का पिता और विचवाओं का न्यायी है ॥  
 ६ परमेश्वर अनाथों का घर बसाता  
 और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है  
 पर हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है ॥  
 ७ हे परमेश्वर जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे  
 पयान करता था  
 जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चलता था ।  
 सेला ॥  
 ८ तब पृथिवी कांप उठी  
 और आकाश परमेश्वर के साम्हने टपकने लगा  
 उधर सीने पर्वत परमेश्वर के इस्त्राएल के परमेश्वर  
 के साम्हने कांप उठा ॥  
 ९ हे परमेश्वर तू ने बहुत से वरदान बरसाये ?  
 तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था पर तू ने  
 उस को हरा भरा<sup>२</sup> किया है ॥  
 १० तेरा भ्रूण्ड इस में बसने लगा  
 हे परमेश्वर तू ने अपनी भलाई से दीन जन के  
 लिये तैयारी की है ॥  
 ११ प्रभु आशा देता है  
 तब शुभ समाचार सुनानेहारियों की बड़ी सेना हो  
 जाती है ॥  
 १२ अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं  
 और गृहस्थिन लूट को बांट लेती हैं ॥  
 १३ क्या तुम भेड़शालों के बीच लोट जाओगे  
 और ऐसी कबूतरी के सरीखे होगी जिस के पंख  
 चांदी से  
 और उस के पर पीले सोने से मढ़े हुए हों ॥  
 १४ जब सर्वशक्तिमान ने उस में राजाओं को तितर  
 बिचर किया  
 तब मानो सल्मोन पर्वत पर हिम पड़ा ॥  
 १५ बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ तो है

(१) मूल में स्वेच्छादानों की वृष्टि दिखाई ।

(२) मूल में स्थिर ।

- बाशान का पहाड़ बहुत शिखरवाला पहाड़ तो है ॥  
 पर हे शिखरवाले पहाड़ा तुम क्यों उस पर्वत को १६  
 घूरते हो  
 जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिये चाहा है  
 वहां यहोवा सदा वास किये ही रहेगा ॥  
 परमेश्वर के रथ हजारों बरन हजारों हजार हैं १७  
 प्रभु उन के बीच है  
 सीने पवित्रस्थान में है ॥  
 तू ऊंचे पर चढ़ा तू लोगो के बन्धुआई में तो १८  
 गया  
 तू ने मनुष्यों के बरन हठीले मनुष्यों के बीच भी  
 मेटे लीं  
 जिस से याह परमेश्वर उन में वास करे ॥  
 धन्य है प्रभु जो दिन दिन हमारा बोझ उठाता है १९  
 वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है । सेला ॥  
 वही हमारे लिये बचानेहारा ईश्वर ठहरा २०  
 यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है<sup>३</sup> ॥  
 निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर २१  
 और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है  
 उस के बाल भरे चोखे पर मार मार के उसे चूर  
 करेगा ॥  
 प्रभु ने कहा है कि मैं उन्हें बाशान से निकाल २२  
 लाऊंगा मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर  
 ले आऊंगा  
 कि तू अपने पांव को लोह में डुबोए २३  
 और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे ॥  
 हे परमेश्वर तेरी गति देखी गई २४  
 मेरे ईश्वर मेरे राजा की गति पवित्रस्थान में दिखाई  
 दी है  
 गानेहारे आगे आगे तारवाले बाजों के बजानेहारे २५  
 पीछे पीछे गये  
 चारों ओर कुमारियां डफ बजाती थीं ॥  
 सभाओं में परमेश्वर का २६  
 हे इस्त्राएल के सोते से निकले हुए लोगो प्रभु का  
 धन्यवाद करो ।  
 वहां उन का प्रभु छाटा विन्यामीन है २७  
 वहां यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत हैं  
 वहां जबूलून और नसाली के भी हाकिम हैं ॥  
 तेरे परमेश्वर ने आशा दी कि तुम्हें सामर्थ्य मिले २८  
 हे परमेश्वर जो कुछ तू ने हमारे लिये किया है  
 उसे बढ़ कर ॥

(३) मूल में यहोवा प्रभु के पास मृत्यु से निकास है ।

- २९ यरूशलेम के ऊपरवाले तेरे मन्दिर के कारण  
राजा तेरे लिये भेंट ले आएंगे ॥
- ३० नरकटों में रहनेहारे भुएड के  
साड़ों के भुएड के और देश देश के बकुड़ों के धुड़क  
वे चांदी के टुकड़े लिये हुए प्रणाम करेंगे  
जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उन को उस ने  
तिर्रर बित्तर किया है ॥
- ३१ मिस्र से रईस आएंगे  
कूशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से  
फैलाएंगे ॥
- ३२ हे पृथिवी पर के राज्य राज्य के लोगों परमेश्वर का  
गीत गाओ  
प्रभु का भजन गाओ । सेला ॥
- ३३ जो सब से ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर  
चलता है  
वह अपनी बाणी सुनाता है वह गंभीर बाणी है ॥
- ३४ परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो  
उस का प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है  
और उस का सामर्थ्य आकाशमण्डल में है ॥
- ३५ हे परमेश्वर तू अपने पवित्रस्थानों में भययोग्य है  
इस्राएल का ईश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य  
और शक्ति देनेहारा है  
परमेश्वर धन्य है ॥  
प्रधान बनानेहारे के लिये । शीराजीम<sup>१</sup> में । दाऊद का ।
- ६९. हे** परमेश्वर मेरा उद्धार कर मैं जल  
में डूबा चाहता हूँ ॥
- २ मैं बड़े दलदल में घसा जाता हूँ और मेरे पैर  
कहीं नहीं रुकते  
मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा  
जाता हूँ ॥
- ३ मैं पुकारते पुकारते थक गया मेरा गला सूख गया है  
अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आँखें  
रह गई हैं ॥
- ४ जो अकारण मेरे बैरी हैं सो गिनती में मेरे शिर  
के बालों से अधिक हैं  
मेरे विनाश करनेहारे जो अनर्थ से मेरे शत्रु हैं  
सो सामर्थी हैं ।  
सो जो मैं ने छूट न लिया था वह भी मुझ को  
वेना पड़ा ॥
- ५ हे परमेश्वर तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है

(१) अर्थात् पुष्पविशेष ।

- और मेरे दोष तुझ से छिपे नहीं हैं ॥  
हे प्रभु हे सेनाओं के यहोवा जो तेरी बाट जोहते ६  
हैं उन की आशा मेरे कारण न टूटे  
हे इस्राएल के परमेश्वर जो तुझे ढूँढते हैं उन का  
मुँह मेरे कारण काला न हो ॥  
तेरे ही कारण मेरी निन्दा हुई है ७  
और मेरा मुँह लज्जा से खँपा है ॥  
मैं अपने भाइयों के लेखे बिराना हुआ ८  
और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में उपरी ठहरा हूँ ॥  
क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते ९  
भस्म हुआ  
और जो निन्दा वे तेरी करते हैं वही निन्दा मुझ  
को सहनी पड़ी है ॥  
जब मैं रोकर और उपवास करके दुःख उठाता था १०  
तब उस से भी मेरी नामधराई ही हुई ॥  
और जब मैं टाट का वस्त्र पहिने था ११  
तब मेरा दृष्टान्त उन में चलता था ॥  
फाटक के पास बैठनेहारे मेरे विषय बातचीत १२  
करते हैं  
और मदिरा पीनेहारे मुझ पर लगता हुआ गीत  
गाते हैं ॥  
पर हे यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता १३  
के समय में हो रही है  
हे परमेश्वर अपनी करुणा की बहुतायत से  
और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार<sup>२</sup>  
मेरी सुन ले ॥  
मुझ को दलदल में से उबार कि मैं घस न जाऊँ १४  
मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच  
जाऊँ ॥  
मैं धारा में डूब न जाऊँ १५  
और न मैं गहरे जल में डूब सकूँ ॥  
और कूप का मुँह मेरे ऊपर बन्द न हो ।  
हे यहोवा मेरी सुन ले क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है १६  
अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर  
फिर ॥  
और अपने दास से अपना मुँह फेरे हुए न रह १७  
क्योंकि मैं संकट में हूँ सो फुर्ती से मेरी सुन ले ॥  
मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले १८  
मेरे शत्रुओं से मुझ को छुटकारा दे ॥  
मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू १९  
जानता है

(२) मूल में अपने उद्धार की सहाई से ।

- मेरे सब द्रोही तेरे साम्हने हैं ॥
- २० मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मेरा रोग असाध्य है और मैं ने किसी तरस खानेहारे की आशा तो की पर किसी को न पाया और शान्ति देनेहारे हूंकता तो रहा पर कोई न मिला ॥
- २१ और लोगों ने मेरे खाने के लिये विष दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिये मुझे सिरका पिलाया ॥
- २२ उन का भोजन बागुर और उन के सुख के समय फन्दा बने ॥
- २३ उन की आंखों पर अंधेरा छा जाए कि वे देख न सकें और तू उन की कटि को निरन्तर कंपाता रह ॥
- २४ उन के ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे कोप की आंच उन को लगे ॥
- २५ उन की छावनी उजड़ जाए उन के डेरों में कोई न रहे ॥
- २६ क्योंकि जिस को तू ने मारा वे उस के पीछे पड़े हैं और जिन को तू ने घायल किया वे उन की पीड़ा की चर्चा करते हैं ॥
- २७ उन के अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करें ॥
- २८ उन का नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए ॥
- २९ पर मैं तो दुःखी और पीड़ित हूँ सो हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा ॥
- ३० मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा ॥
- ३१ यह यहोवा को बैल से अधिक बरन सींग और खुरवाले बैल से भी अधिक भाएगा ॥
- ३२ नम्र लोग इसे देखकर आनन्दित होंगे हे परमेश्वर के खोजियो तुम्हारा मन हरा हो जाए ॥
- ३३ क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंधुए हैं तुच्छ नहीं जानता ॥
- ३४ स्वर्ग और पृथिवी

और सारा समुद्र अपने सब जीव जन्तुओं समेत उस की स्तुति करें ॥  
क्योंकि परमेश्वर सिव्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उस के अधिकारी हो जाएंगे ॥  
उस के दासों का वंश उस को अपने भाग में बसाएगा और उस के नाम के प्रेमी उस में वास करेंगे ॥  
प्रधान बजानेहारे के लिये । दाऊद का स्मरण कराने के लिये ।

७०. हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिये हे यहोवा मेरी सहायता करने को फुर्ती कर ॥

जो मेरे प्राण के खोजी हैं २  
उन की आशा टूटे और मुंह काला हो जाए जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं  
सो पीछे हटाए और निरादर किये जाए ॥  
जो कहते हैं आहा आहा ३  
सो अपनी लजा के मारे उलटे फेरे जाए ॥  
जितने तुझे दूंदते हैं सो सब तेरे कारण हर्षित ४  
और आनन्दित हैं  
और जो तेरा उद्धार चाहते हैं सो निरन्तर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो ॥  
मैं तो दीन और दरिद्र हूँ ५  
हे परमेश्वर मेरे लिये फुर्ती कर  
तू मेरा सहायक और छुड़ानेहारा है  
हे यहोवा बिलंब न कर ॥

७१. हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ मेरी आशा कभी टूटने न पाए ॥

तू जो धर्मी है सो मुझे छुड़ा और उबार २  
मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर ॥  
मेरे लिये ऐसा चटानवाला धाम बन जिस ३  
में मैं नित्य जा सकूँ  
तू ने मेरे उद्धार की आशा तो दी है  
क्योंकि तू मेरी ढांग और मेरा गढ़ ठहरा है ॥  
हे मेरे परमेश्वर दुष्ट के ४  
और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरो रक्षा कर ॥  
क्योंकि हे प्रभु यहोवा मैं तेरी ही बाट जोहता ५  
आया हूँ ॥

- बचपन से मेरा आहार तू है ॥  
 ६ मैं गर्भ से निकलते ही तुझ से संभाला गया  
 मुझे मा की कोख से तू ही ने निकाला  
 सो मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा ॥  
 ७ मैं बहुतों के लिये चमत्कार बना हूँ  
 पर तू मेरा इह शरणस्थान है ॥  
 ८ मेरे मुँह से तेरे गुणानुवाद  
 और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ  
 करे ॥  
 ९ बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर  
 जब मेरा बल घटे तब मुझ को छोड़ न दे ॥  
 १० क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं  
 और जो मेरे प्राण की ताक में हैं  
 सो आपस में यह सम्मति करते हैं कि  
 ११ परमेश्वर ने उस को छोड़ दिया है  
 उस का पीछा करके उसे पकड़ लो क्योंकि उस का  
 कोई छुड़ानेहारा नहीं ॥  
 १२ हे परमेश्वर मुझ से दूर न रह  
 हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ॥  
 १३ जो मेरे प्राण के विरोधी हैं उन की आशा टूटे  
 और उन का अन्त हो जाए  
 जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं सो नामधराई और  
 अनादर में गड़ जाए ॥  
 १४ मैं तो निरन्तर आशा लगाये रहूंगा  
 और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा ॥  
 १५ मैं अपने मुँह से तेरे धर्म का  
 और तेरे किये हुए उदार का वर्णन दिन भर  
 करता तो रहूंगा  
 पर उन का पूरा ब्यौर जाना भी नहीं जाता ॥  
 १६ मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन  
 करता हुआ आऊंगा  
 मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा ॥  
 १७ हे परमेश्वर तू तो मुझ को बचपन ही से सिखाता  
 आया है  
 और अब लो मैं तेरे आश्चर्यकर्मों का प्रचार  
 करता आया हूँ ॥  
 १८ सो हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ  
 और मेरे बाल पक जाएँ तब भी मुझे न छोड़  
 तब लो मैं आनेवाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल  
 और सब उत्पन्न होनेहारों को तेरा पराक्रम सुनाता  
 रहूंगा ॥  
 १९ और हे परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है

- और तू जिस ने महाकाय्य किये हैं  
 हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है ।  
 तू ने तो हम से बहुत और कठिन कह भुगताये तो हैं २०  
 पर अब फिरके हम को खिलाएगा  
 और पृथिवी के गहिरें गड़हे में से उबार लेगा ।  
 तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा २१  
 और फिरके मुझे शान्ति देगा ॥  
 हे मेरे परमेश्वर २२  
 मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर  
 गाऊंगा  
 हे इस्राएल के पवित्र मैं शीशा बजाकर तेरा भजन  
 गाऊंगा ॥  
 जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुँह से २३  
 और अपने जीव से भी जो तू ने बचा लिया है  
 जयजयकार करूंगा ॥  
 और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा २४  
 क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उन की  
 आशा टूट गई और मुँह काले हो गये हैं ॥  
 सुलैमान का

७२. हे परमेश्वर राजा को अपना नियम  
 बता

- राजपुत्र को अपना धर्म सिखा ॥  
 वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से २  
 और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा ॥  
 पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिये ३  
 धर्म के द्वारा शान्ति मिला करेगी ॥  
 वह प्रजा में के दीन लोगों का न्याय करेगा ४  
 और दरिद्र लोगों को बचाएगा  
 और अन्धे करनेहारों को चूर करेगा ॥  
 जब लो सूर्य और चन्द्रमा बने रहेंगे ५  
 तब लो लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे ॥  
 वह घास की खंटी पर बरसनेहारों में ६  
 और भूमि सींचनेहारी झड़ियों के समान होगा ॥  
 उस के दिनों में धर्मी फूलें फलेंगे ७  
 और जब लो चन्द्रमा बना रहेगा तब लो शान्ति  
 बहुत रहेगी ॥  
 और वह समुद्र से समुद्र लो ८  
 और महानद से पृथिवी की छोर लो प्रभुता  
 करेगा ॥  
 उस के साम्हने जंगल के रहनेहारों घुटने टेकेंगे ९  
 और उसके शत्रु माटी चाटेंगे ॥  
 तर्शाश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे १०

- ११ शबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे ॥  
सारे राजा उस को दरद्वार करेगे  
जाति जाति के लोग उस के अधीन हो जाएंगे ॥  
१२ क्योंकि वह दोहाई देनेहारे दरिद्र के  
और दुःखी और असहाय मनुष्य को उबारेगा ॥  
१३ वह कगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा  
और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा ॥  
१४ वह उन के प्राणों को अंधेर और उपद्रव से  
छुड़ा लेगा  
और उन का लोहू उस की दृष्टि में अनमोल  
ठहरेगा ॥  
१५ वह तो जीता रहेगा और शबा के सोने में से उस  
को दिया जाएगा  
लोग उस के लिये नित्य प्रार्थना करेगे  
और दिन भर उस को धन्य कहते रहेंगे ॥  
१६ देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा

- जिस की बालें लगाने के देवदारुओं की नाईं  
झूमेंगी  
और नगर के लोग घास की नाईं लहलहाएंगे ॥  
उस का नाम सदा बना रहेगा १७  
जब लौ सूर्य बना रहेगा तब लौ उस का नाम  
नित्य नया होता रहेगा  
और लोग अपने को उस के कारण धन्य गिनेंगे  
सारी जातियां उस को भाग्यवान कहेंगी ॥  
धन्य है यही परमेश्वर जो इस्राएल का १८  
परमेश्वर है  
आश्चर्य्य कर्म केवल वही करता है ॥  
और उस का माहमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा १९  
और सारी पृथिवी उस की महिमा से परिपूर्ण होगी ।  
आमेन फिर आमेन ॥

थिरी के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुईं ॥ २०

## तीसरा भाग ।

आसाप का भजन ।

### ७३. समुच्च इस्राएल के अर्थात् शुद्ध मनवालों के लिये

- परमेश्वर भला है ॥  
२ मेरे पांव तो टला चाहते थे  
मेरे पर फिसल जाने ही पर थे ॥  
३ क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था  
तब उन चमण्डियों के विषय डाह करता था ॥  
४ क्योंकि उन का मृत्युकारक बाधाएं नहीं होतीं  
उन का बल अटूट रहता है ॥  
५ उन को दूसरे मनुष्यों की नाईं कष्ट नहीं होता  
और और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति  
नहीं पड़ती ॥  
६ इस कारण अहंकार उन के गले का द्वार बना  
उन का ओठना उपद्रव है ॥  
७ उन की आंखें चर्बी में से झलकती हैं  
उन के मन की भावनाएं उमण्डती हैं ॥  
८ वे डट्टा मारते और दुष्टता से अंधेर की बात  
बोलते हैं

पा० ६५

- वे डींग मारते हैं १ ॥  
वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं २  
और वे पृथिवी में बोलते फिरते हैं २ ॥  
तौमी उस की प्रजा इधर लौट आएगी १०  
और उन को भरे हुए प्याले का जल मिलेगा ॥  
फिर वे कहते हैं कि ईश्वर कैसे जानता है ११  
क्या परमप्रधान को कुछ ज्ञान है ॥  
देखो ये तो दुष्ट लोग हैं १२  
तौमी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते  
रहते हैं ॥  
निश्चय मैं ने जो अपने हृदय को शुद्ध किया १३  
आर अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है सो  
सब व्यर्थ है ॥  
क्योंकि मैं लगातार मार खाता आया हूँ १४  
और मार मार को मेरी ताड़ना हाती आई है ॥  
यदि मैं ऐसा ही कहना ठानता १५  
तो मैं तेरे लड़कों के समाज को धोखा  
खिलाता ॥

(१) मूल में वे ऊंचे पर से बोलते हैं ।

(२) मूल में उन की जीभ पृथिवी में चलती ।

१६ इस बात के समझने के लिये सोचते सोचते  
यह मेरी दृष्टि में तब लों अति कठिन ठहरी  
१७ जब लों मैं ने ईश्वर के पवित्रस्थान में जाकर  
उन लोगों के परिणाम को न विचारा ॥  
१८ निश्चय तू उन्हें फिसलाहे स्थानों में रखता  
और गिरा कर सत्यानाश कर देता है ॥  
१९ अहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गये हैं  
वे मिट गये वे धरराते धरराते नाश हो गये हैं ॥  
२० जैसे जागनेहारा स्वप्न को तुच्छ जानता है  
वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उन को छाया सा  
समझकर तुच्छ जानेगा ॥  
२१ मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया  
मेरा अन्तःकरण छिद गया था ॥  
२२ मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था  
मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था ॥  
२३ तौभी मैं निरन्तर तेरे संग ही था  
तू ने मेरे दहिने हाथ को पकड़ रक्खा ॥  
२४ तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा  
और पीछे मेरी महिमा करके मुझ को अपने  
पास रखेगा ॥  
२५ स्वर्ग में मेरा और कौन है ?  
तेरे संग रहते हुए मैं पृथिवी पर भी कुछ नहीं  
चाहता ॥  
२६ मेरे तन और मन दोनों तो हार गये हैं  
परन्तु परमेश्वर सर्वदा के लिये मेरा भाग और  
मेरे मन की चटान बना है ॥  
२७ जो तुझ से दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे  
जो कोई तेरे विरुद्ध व्याभिचार करता है उस को  
तू विनाश करता है ॥  
२८ परन्तु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिये  
भला है  
मैं ने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान माना है  
जिस से तेरे सब कामों का वर्णन करूं ॥  
आसाप का मस्कील ।

७४. हे परमेश्वर तू ने हमें क्या सदा के  
लिये छोड़ दिया है

तेरी कोपाग्नि का धूआं तेरी चराई की मेड़ों  
के विरुद्ध क्यों उठ रहा है ॥

२ अपनी मगडली को जिसे तू ने प्राचीनकाल  
में मोल लिया था

और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिये  
छुड़ा लिया था

और इस सिव्येन पर्वत को भी जिस पर तू ने  
वास किया था स्मरण कर ॥

सदा के उजाड़ों की और पधार ३  
शत्रु ने तो पवित्रस्थान में सब कुछ बिगाड़  
दिया है ॥

तेरे द्रोही तेरे समास्थान के बीच गरजे ४  
उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया ॥

वे ऐसे देख पड़े ५  
कि मानो घने बन के पेड़ों पर कुल्हाड़े उठा  
रहे हैं ॥

और अब वे उस भवन की नकाशी को ६  
कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से एक दम तोड़  
डालते हैं ॥

उन्होंने ने तेरे पवित्रस्थान को आग में भोंक दिया ७  
और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर  
डाला है ॥

उन्होंने ने मन में कहा है कि हम इन को एक दम ८  
दबा दें

उन्होंने ने इस देश में ईश्वर के सब सभास्थानों  
को फूंक दिया है ॥

हम को अपने संकेत नहीं देख पड़ते ९  
अब कोई नबी नहीं रहा

न हमारे बीच कोई जानता है कि कब लों ॥  
हे परमेश्वर द्रोही कब लों नामधराई करता रहेगा ? १०

क्या शत्रु तेरे नाम की निन्दा सदा करता रहेगा ॥  
तू अपना दाहना हाथ क्यों रोके रहता है ११

उसे अपनी छाती पर से उठाकर उन का अन्त  
कर दे ॥

परमेश्वर तो प्राचीनकाल से मेरा राजा है १२  
वह पृथिवी पर उद्धार के काम करता आया है ॥

तू ने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग १३  
किया

तू ने तो जल में मगर मच्छों के सिरों को फोड़  
दिया ॥

तू ने तो लिब्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके १४  
जंगली जन्तुओं को खिला दिये ॥

तू ने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई १५  
तू ने तो बारहमासी नदियों को सुखा डाला ॥

दिन तेरा है रात भी तेरी है, १६  
सूर्य और चंद्रमा को तू ने स्थिर किया है ॥

तू ने तो पृथिवी के सब सिवानों को ठहराया १७  
धूपकाल और जाड़ा दोनों तू ने ठहराये हैं ॥

- १८ हे यहोवा स्मरण कर कि शत्रु ने नामघराई की है  
और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निन्दा की है ॥
- १९ अपनी पिण्डकी के प्राण को बनपशु के वश में न  
कर दे,  
अपने दीन जनों के सदा के लिये न बिसरा ॥
- २० अपनी वाचा की सुधि ले  
क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अंधेर के घरी से  
भरपूर है ॥
- २१ पिसे हुए जन को निरादर होकर लौटना न पड़े  
दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने  
पाएँ ॥
- २२ हे परमेश्वर उठ अपना मुकद्दमा आप ही लड़  
तेरी जो नामघराई मूढ़ से दिन भर होती रहती है  
सो स्मरण कर ॥
- २३ अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल  
तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरन्तर उठता  
रहता है ॥

प्रधान बजानेहार के लिये । अलतशहेत १ ।

आसाप का भजन । गीत ।

**७५. हे** परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते  
हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि  
तेरा नाम प्रगट<sup>४</sup> हुआ है

तेरे आश्चर्य्यकर्मों का वर्णन हो रहा है ॥

- २ जब ठीक समय आएगा  
तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा ॥
- ३ पृथिवी अपने सब रहनेहारों समेत गल रही है  
मैं उस के खंभों को थामे हूँ । संला ॥
- ४ मैं ने घमंडियों से कहा कि घमण्ड मत करो  
और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो ॥
- ५ अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो  
न सिर उठकर<sup>५</sup> दिठाई की बात बोलो ॥
- ६ क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पच्छिम से  
और न जंगल की ओर से आती है ॥
- ७ परन्तु परमेश्वर ही न्यायी है  
वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है ॥
- ८ यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिस में का  
दाखमधु फेना रहा है  
उस में मसाला मिला है और वह उस में से  
उंडेलता है

निश्चय उस की तलछट तक पृथिवी के सब दुष्ट  
लोग पी जाएंगे<sup>४</sup> ॥

- पर मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा ९  
मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा ॥  
और दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा १०  
पर घमंडी के सींग ऊंचे किये जाएंगे ॥

प्रधान बजानेहार के लिये तारवाले बाजों के साथ ।  
आसाप का भजन । गीत ।

**७६. परमेश्वर** यहूदा में जाना गया है  
उस का नाम इस्राएल में महान  
हुआ है ॥

- और उस का मण्डप शालेम में २  
और उस का धाम सिधोन में है ॥  
वहां उस ने चमचमाते तीरों की ३  
और ढाल और तलवार तोड़कर निदान लड़ाई ही  
को तोड़ डाला है । संला ॥  
हे परमेश्वर तू तां ज्योतिमय है ४  
तू अंधेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक महान है ॥  
दृढ़ मनवाले लुट गये और भारी नींद में पड़े हैं ५  
और शूरवीरों में से किसी का हाथ न चला<sup>५</sup> ॥  
हे याकूब के परमेश्वर तेरी घुड़की से ६  
रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े ॥  
केवल तू ही भययोग्य है ७  
और जब तू कांप करने लगे तब तेरे साम्हने कौन  
खड़ा रह सकेगा ॥  
तू ने स्वर्ग से निर्णय का वचन सुनाया ८  
पृथिवी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही  
जब परमेश्वर न्याय करने को ९  
और पृथिवी के सब मनुज लोगों का उद्धार करने  
का उठा । संला ॥  
निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण १०  
हो जाएगी  
और जो जलजलाहट रह जाए उस को तू  
रंकेगा ॥  
अपने परमेश्वर यहोवा की मज्जत मानो और पूरी ११  
भी करो  
वह जो भय के योग्य है सो उस के आस पास के  
सब रहनेहार भेट ले आएँ ॥  
वह तो प्रधानों का अभिमान<sup>६</sup> मिटा देगा १२  
वह पृथिवी के राजाओं को भययोग्य जान पड़ता है ॥

(१) अर्थात् नारा न कर । (२) मल में निकट ।

(३) मूल में न गर्दन से ।

(४) मूल में निचोड़ निचोड़कर पीएंगे ।

(५) मूल में मिला । (६) मूल में आत्मा ।



प्रधान बजानेहारे के लिये । यदूतुन को ।  
आसाप का । भजन ।

**७७. मैं** परमेश्वर की दोहाई चिन्ता चिन्ता-  
कर दूंगा

मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी ओर  
कान लगाएगा ॥

- १ संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा  
रात को मेरा हाथ फैला रहा और ठीला न हुआ  
मुझ को शान्ति आई ही नहीं ॥
- २ मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कहरता हूँ  
मैं चिन्ता करते करते मूर्च्छित हो चला हूँ । सेला ॥
- ३ तू मुझे भ्रमों लगाने नहीं देता  
मैं ऐसा बधराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं  
निकलती ॥
- ४ मैं ने प्राचीनकाल के दिनों को  
और युग युग के बरसों को सोचा है ॥
- ५ मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता  
और मन में ध्यान करता  
और जो मैं भली भाँति विचार करता हूँ ॥
- ६ क्या प्रभु युग युग के लिये छोड़ देगा  
और फिर कभी प्रसन्न न होगा ॥
- ७ क्या उस की करुणा सदा के लिये जाती रही ?  
क्या उस का वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिये निष्फल हो  
गया है ॥
- ८ क्या ईश्वर अनुग्रह करने को भूल गया  
क्या उस ने कोप करके अपनी सारी दया को रोक  
रक्खा है । सेला ॥
- ९ मैं ने कहा यह तो मेरी दुर्बलता ही है  
परन्तु परमप्रधान के दहिने हाथ के बरसों को  
विचारता हूँ ॥
- १० मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा  
निश्चय मैं तेरे प्राचीनकालवाले अद्भुत कामों का  
स्मरण करूंगा ॥
- ११ मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा  
और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा ॥
- १२ हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है  
कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है ॥
- १३ अद्भुत काम करनेहारा ईश्वर तू ही है  
तू ने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रगट  
की है ॥
- १४ तू ने अपने भुजबल से अपनी प्रजा  
याकूब और यूसुफ के बंश को छुड़ा लिया । सेला ॥

- हे परमेश्वर जल ने तुझे देखा १६  
जल को तुझे देखने से पीके उठीं  
गहिरा सागर भी व्याकुल हुआ ॥  
मेघों से बड़ी वर्षा हुई १७  
आकाश से शब्द हुआ  
फिर तेरे तीर इधर उधर चले ॥  
बवण्डर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा १८  
जगत विजली से प्रकाशित हुआ  
पृथिवी कांपी और हिल गई ॥  
तेरा मार्ग समुद्र में १९  
और तेरा रास्ता गहिरा जल में हुआ  
और तेरे पाँवों के चिन्ह देख न पड़े ॥  
तू ने मूसा और हारून के द्वारा  
अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की ॥

आसाप का मस्कील ।

- ७८. हे** मेरी प्रजा मेरी शिक्षा सुन  
मेरे वचनों की ओर कान लगा ॥
- मैं अपना मुह नीतिवचन कहने के लिये खोलूंगा २  
मैं प्राचीनकाल की गुप्त बातें कहूंगा ॥
- जिन बातों को हम ने सुना और जान लिया ३  
और हमारे बापदादों ने हम से वर्णन किया है  
उन्हें हम उन की सन्तान से गुप्त न रखेंगे ४  
पर होनहार पीढ़ी के लोगों से  
यहोबा का गुणानुवाद और उस के सामर्थ्य और  
आश्चर्यकर्मों का वर्णन करेंगे ॥
- उस ने तो याकूब में एक चिंतौनी ठहराई ५  
और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई  
उन के विषय उस ने हमारे पितरों को आज्ञा दी  
कि तुम इन्हें अपने अपने लड़केवालों को  
बताना  
इस लिये कि आनेहारी पीढ़ी के लोग अर्थात् जो ६  
लड़केवाले उत्पन्न होनेहार हैं सा इन्हें जानें  
और अपने अपने लड़केवालों से इन का बखान  
करने में उद्यत हों
- जिस सं वे परमेश्वर का आसरा कर ७  
और ईश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं  
और उस की आज्ञाओं का पालन रहें  
और अपने पितरों के समान न हों ८  
क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और  
दंगल थे  
और उन्हां ने अपना मन दृढ़ न किया था  
और न उन का आत्मा ईश्वर की ओर सच्चा रहा ॥

- ९ एप्रैमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ फेरी ॥
- १० उन्हीं ने परमेश्वर की वाचा पूरी न की और उस की व्यवस्था पर चलने को नकारा
- ११ और उस के बड़े कामों को और जो आश्चर्य-कर्म उस ने उन के साम्हने किये थे उन को बिसरा दिया ॥
- १२ उस ने तो उन के बापदादों के सम्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत कर्म किये थे ॥
- १३ उस ने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार कर दिया और जल को ढेर की नाई खड़ा कर दिया ॥
- १४ और उस ने दिन को तो बादल के और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उन की अगुवाई की ॥
- १५ वह जंगल में चटानें फाड़ फाड़कर उन को मानो गहिरें जलाशयों से मनमानते पिलाता था ॥
- १६ उस ने हांग से भी धाराएं निकालीं और नदियों का सा जल बहाया ॥
- १७ तो भी वे फिर उस के विरुद्ध अधिक पाप करते गये और निर्जल देश में परमप्रधान के विरुद्ध उठते रहे ॥
- १८ और अपनी चाह के अनुसार? भोजन मांगकर मन ही मन ईश्वर की परीक्षा की ॥
- १९ और वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे क्या ईश्वर जङ्गल में मज लगा सकता ॥
- २० उस ने चटान पर मारके जल बहा तो दिया और धाराएं उमण्ड चलीं पर क्या वह रोटी भी दे सकता क्या वह अपनी प्रजा के लिये मांस भी तैयार कर सकता ॥
- २१ सो यहोवा सुन कर रोष से भर गया तब याकूब के बीच आग लगी और इस्राएल के विरुद्ध कोप भड़का ॥
- २२ इसलिये कि उन्होंने ने परमेश्वर पर विश्वास न रक्खा

- न उस की उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया ॥  
तो भी उस ने आकाश को आकाश दी २३  
और स्वर्ग के द्वारों को खोला ॥  
और उन के लिये खाने को मान बरसाया २४  
और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया ॥  
उन को शूरवीरों की सी रोटी मिली २५  
उस ने उन को मनमानते भोजन दिया ॥  
उस ने आकाश में पुरवाई को चलाया २६  
और अपनी शक्ति से दखिर्नाहया बहाई ॥  
और उन के लिये मांस धूलि की नाई बहुत बरसाया २७  
और समुद्र की बालू के समान अनगिनित पंखी भेजे  
और उन की छावनी के बीच २८  
उन के निवासों के चारों ओर गिराये ॥  
सो वे खाकर अति तृप्त हुए २९  
और उस ने उन की कामना पूरी की ॥  
उन की कामना बनी ही रही? ३०  
उन का भोजन उन के मुँह ही में था  
कि परमेश्वर का वाप उन पर भड़का ३१  
और उस ने उन के हृष्टपुष्टों को घात किया  
और इस्राएल के जवानों को गिरा दिया ॥  
इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गये ३२  
और परमेश्वर के आश्चर्यकर्मों की प्रतीति न की ॥  
सो उस ने उन के दिनों का व्यर्थ भ्रम में ३३  
और उन के बरसों को घबराहट में कटवाया ॥  
जब जब वह उन्हें घात करने लगता तब तब वे ३४  
उस को पूछते थे  
और फिरके ईश्वर को यत्न से खोजते थे ॥  
और उन को स्मरण होता था कि परमेश्वर ३५  
हमारी चटान है  
और परमप्रधान ईश्वर हमारा झुड़ानेहारा है ॥  
तोभी उन्हीं ने उस से चापलूसी की ३६  
और वे उस से झूठ बोले ॥  
क्योंकि उन का हृदय उस की ओर हड़ ३७  
न था  
न वे उस की वाचा के विषय सच्चे थे ॥  
पर वह जो दयालु है सो अधर्म को टांपता ३८  
और नाश नहीं करता  
वह बार बार अपने कोप को उण्डा करता

- और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़-  
कने नहीं देता ॥
- ३९ सो उस को स्मरण हुआ कि ये नाशमान<sup>१</sup> हैं  
ये वायु के समान हैं जो चली जाती और लौट  
नहीं आती ॥
- ४० उन्होंने ने कितनी ही बार जङ्गल में उस से  
बलवा किया
- और निर्जल देश में उस को उदास किया ॥
- ४१ वे फिरके ईश्वर की परीक्षा करते  
और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे ॥
- ४२ उन्होंने ने न तो उस का मुजबल स्मरण किया  
न वह दिन जब उस ने उन को द्राही के वश से  
छुड़ाया था
- ४३ कि उस ने क्योंकर अपने चिन्ह मिस्र में  
और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में  
किये थे ॥
- ४४ उस ने तो मिंसियों<sup>२</sup> की नहरों को लोहू  
बना डाला
- और वे अपनी नदियों का जल पी न सके ॥
- ४५ उस ने उन के बीच डांस भेजे जिन्होंने उन्हें  
काट खाया ॥
- और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उन का बिगाड़  
किया ॥
- ४६ और उस ने उन की भूमि की उपज कीड़ों के  
और उनकी खेतीवारी टिण्डियों को खिला दी थी ॥
- ४७ उस ने उन की दाखलताओं को आंलों से  
और उन की गूलरों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर  
नाश किया ॥
- ४८ उस ने उन के पशुओं को आंलों से  
और उन के द्वारों को बिजलियों से मिटा दिया ॥
- ४९ उस ने उन के ऊपर अपना प्रचण्ड कोप क्रोध  
और रोष भड़काया
- और उन्हें संकट में डाला  
और दुखदाई दूतों का दल भेजा ॥
- ५० उस ने अपने कोप का मार्ग खोला<sup>३</sup>  
और उन के प्राणों को मृत्यु से न बचाया  
पर उन को मरी के वश कर दिया
- ५१ और मिस्र में के सब पहिलौठों को मारा  
जो हाम के डेरों में पौरुष के पहिले फल थे

(१) मूल में मांस ।

(२) मूल में उन ।

(३) मूल में समथर किया ।

- पर अपनी प्रजा को मेड़ बकरियों की नाई पयान ५२  
कराया
- और जङ्गल में उन की अगुवाई पशुओं के मुरड  
की सी की ॥
- सो वे तो उस के चलाने से बेखटके चले और ५३  
उन को कुछ भय न हुआ
- पर उन के शत्रु समुद्र में डूब गये ॥
- और उस ने उन को अपने पवित्र देश के ५४  
सिबाने लों
- इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उस ने अपने  
दहिने हाथ से प्राप्त किया था ॥
- और उस ने उन के साम्हने से, अन्यजातियों को ५५  
भगा दिया
- और उन की भूमि को डोरी से माप मापकर  
बांट दिया
- और इस्राएल के गोत्रों को उन के डेरों में बसाया ॥
- परन्तु उन्होंने ने परमप्रधान परमेश्वर की परीक्षा की ५६  
और उस से बलवा किया
- और उस की चित्तौनियों को न माना  
और मुड़कर अपने पुरखाओं की नाई विश्वासघात ५७  
किया
- उन्होंने ने निकम्मे<sup>४</sup> धनुष की नाई धोखा दिया<sup>५</sup>,  
और उन्होंने ने ऊंचे स्थान बनाकर उस को रिस ५८  
दिलाई
- और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उस के जलन  
उपजाई ॥
- परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया ५९
- और इस्राएल को बिलकुल तज दिया ॥
- और शीलों में के निवास ६०
- अर्थात् उस तम्बू के जो उस ने मनुष्यों के बीच  
खड़ा किया था त्याग दिया ॥
- और अपने सामर्थ्य को बंधुआई में जाने दिया ६१
- और अपनी शोभा को द्रोही के वश कर दिया
- और अपनी प्रजा को तलवार से भरवा दिया ६२
- और अपने निज भाग के लोगों पर रोष से भर गया ॥
- उन के जवान आग से भस्म हुए ६३
- और उन की कुमारियों के विवाह के गीत न  
गाये गये ॥
- उन के याजक तलवार से मारे गये ६४
- और उन की विधवाएं रोने न पाई ॥

(४) मूल में धोखा देनेहारे । (५) मूल में मुड़ गये ।

- ६५ तब प्रभु नींद से चौंक उठा  
और ऐसे वीर के समान उध जो दाखमधु पीकर  
ललकारता हो ॥
- ६६ और उस ने अपने द्रोहियों को मारके पीछे  
हटा दिया  
और उन की सदा की नामधराई कराई ॥
- ६७ फिर उस ने यूसुफ के तंबू को तज दिया  
और एप्रैम के गोत्र को न चुना
- ६८ पर यहूदा ही के गोत्र को  
और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया ॥
- ६९ और अपने पवित्रस्थान को बहुत ऊंचा बना  
दिया  
और पृथिवी के समान स्थिर बनाया जिस की  
नेव उस ने सदा के लिये डाली है ॥
- ७० फिर उस ने अपने दास दाऊद को चुनकर  
मेड़शालाओं में से ले लिया ॥
- ७१ वह उस को बध्वाली मेड़ों के पीछे पीछे  
फिरने से ले आया  
कि वह उस की प्रजा याकूब की  
अर्थात् उस के निज भाग इस्राएल की चरवाही  
करे
- ७२ सो उस ने खरे मन से उन की चरवाही की  
और अपने हाथ की कुशलता से उन की  
अगुवाई की ॥

आसाप का भजन ।

७६. हे परमेश्वर अन्यजातियां तेरे निज  
भाग में घुस आइं

- उन्होंने ने तेरे पवित्र मन्दिर को अशुद्ध किया  
और यरूशलेम का डीह ही डीह कर दिया है ॥
- २ उन्होंने ने तेरे दासों की लोथों को आकाश के  
पक्षियों का आहार कर दिया  
और तेरे भक्तों का मांस बनैले पशुओं का खिला  
दिया है ॥
- ३ उन्होंने ने उन का लोहू यरूशलेम के चारों ओर  
जल की नाईं बहाया  
और उन को मिट्टी देनेहारा कोई न रहा ॥
- ४ पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई  
चारों ओर के रहनेहारे हम पर हंसते और ठट्टा  
करते हैं ॥
- ५ हे यहोवा तू कब लों लगातार कोप करता  
रहेगा

- तुझ में आग की सी जलन कब लों भड़कती  
रहेगी ॥
- जो जातियां तुझ को नहीं जानती ६  
और जिन राज्यों के लोग तुझ से प्रार्थना नहीं  
करते  
उन्हीं पर अपनी सारी जलजलाहट भड़का १ ॥  
क्योंकि उन्होंने ने याकूब को निगल लिया ७  
और उस के वासस्थान को उजाड़ दिया है ॥  
हमारी हानि के लिये हमारे पुरखाओं के अधर्म के ८  
कामों को स्मरण न कर ॥  
तेरी दया हम पर शीघ्र हो  
क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं ॥  
हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर अपने नाम ९  
की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर  
और अपने नाम के निमित्त हम को छुड़ाकर हमारे  
पापों को ढांप दे ॥  
अन्यजातियां क्यों कहने पाएं कि उन का परमेश्वर १०  
कहाँ रहा  
अपने दासों के खून का पलटा लेना  
अन्यजातियों के बीच हमारे देखते मालूम हो  
जाए ॥  
बंधुओं का कराहना तेरे कान लों पहुँचे ११  
घात होनेहारों के अपने भुजबल के द्वारा बचा ॥  
और हे प्रभु हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निन्दा १२  
की है  
उस का सातगुणा बदला उन को दे ॥  
तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की १३  
भेड़ें हैं  
सो तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे  
और पीढ़ी से पीढ़ी लों तेरा गुणानुवाद करते  
रहेंगे ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । शोशनीमेदूत में ।  
आसाप का भजन ।

८०. हे इस्राएल के चारवाहे  
तू जो यूसुफ की अगुवाई मेड़ों  
की सी करता है कान लगा  
तू जो करूबों पर विराजमान है अपना तेज  
दिखा ॥

- (१) मूल में अपनी जलजलाहट उगड़ेल ।  
(२) अर्थात् सोसन साक्षी ।

- १ प्रेम विन्यामीन और मनशो के छान्हने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ ॥
- २ हे परमेश्वर हम को ज्यों के त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका तब हमारा उद्धार हो जाएगा ॥
- ४ हे सेनाओं के परमेश्वर यहीवा तू कब लो अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा ॥
- ५ तू ने आसुओं को उन का आहार कर दिया और मटके भर भरके उन्हें आसु पिलाये हैं ॥
- ६ तू हमें हमारे पड़ोसियों के भगड़ने का कारण कर देता है और हमारे शत्रु मनमानते उठ्ठा करते हैं ॥
- ७ हे सेनाओं के परमेश्वर हम को ज्यों के त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तब हमारा उद्धार हो जाएगा ॥
- ८ तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्यजातियों को निकालकर उसे लगा दिया ॥
- ९ तू ने उस के लिये स्थान तैयार किया और उस ने जड़ पकड़ा और फैलकर देश को भर दिया ॥
- १० उस की छाया पहाड़ों पर फैल गई और उस की डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुईं ॥
- ११ उस की शाखाएं समुद्र लो बह गईं और उस के अंकुर मदानद लो फैल गये ॥
- १२ फिर तू ने उस के बाड़ों को क्यो गिरा दिया कि सारे बटोही उस के फलों को तोड़ लेते ॥
- १३ बनसुअर उस को नाश किये डालता है और मैदान के सब पशु उसे चरे लेते हैं ॥
- १४ हे सेनाओं के परमेश्वर फिर आ स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले ॥
- १५ और जो पीचा तू ने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जिस लता की शाखा तू ने अपने लिये डूब की है उन की सुधि ले ।

- वह जल गई वह कट गई है १६  
तेरी घुड़की से वे नाश होते हैं ॥  
तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ १७  
रख्खा रहे  
उस आदमी पर जिसे तू ने अपने लिये डूब किया है ॥  
तब हम लोग तुम्ह से न मुड़ेंगे १८  
तू हम को जला और हम तुम्ह से प्रार्थना कर सकेंगे ॥  
हे सेनाओं के परमेश्वर यहीवा हम को ज्यों के १९  
त्यों कर दे  
और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तब हमारा उद्धार हो जाएगा ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । गित्तीथ में । आसाप ।

### ८९. परमेश्वर जा हमारा बल है उस का गीत आनन्द से गाओ

- याकूब के परमेश्वर का जयजयकार करो ॥  
भजन उठाओ डफ और मधुर बजनेहारी बीणा २  
और सारंगी को ले आओ ॥  
नये चांद के दिन ३  
और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फुको ॥  
क्योंकि यह इस्ताएल के लिये विधि ४  
और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है ॥  
इस को उस ने यूसुफ में चितनी की रीति पर ५  
तब चलाया  
जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला  
वहां मैं ने एक अनजानी भाषा सुनी ॥  
मैं ने उन के कन्धों पर से बोझ को उतार ६  
दिया  
उन का टोकरी ढोना छूट गया ॥  
तू ने संकट में पड़कर पुकारा तब मैं ने तुम्हें ७  
छुड़ाया  
बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैं ने तेरी सुनी  
और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की ।  
सेला ॥  
हे मेरी प्रजा सुन मैं तुम्हें चिता देता हूं ८  
हे इस्ताएल भला हो कि तू मेरी सुने ॥  
तेरे बीच पराया ईश्वर न हो ९

(१) मूल में धूआं उठाता रहेगा ।

(२) मूल में बैटा ।

न तू और किसी के माने हुए ईश्वर को दण्डवत्  
करना ॥

- १० तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ  
जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है  
तू अपना मुँह पसार मैं उसे भर दूँगा ॥
- ११ पर मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी  
इसाएल ने मुझ को न चाहा ॥
- १२ सा मैं ने उस को उस के मन के हठ पर  
छोड़ दिया  
कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले ॥
- १३ यदि मेरी प्रजा मेरी सुने  
यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले  
तो मैं क्षण भर में उन के शत्रुओं को दबाऊँ  
और अपना हाथ उन के द्रोहियों के विरुद्ध  
चलाऊँ ॥
- १४ यहोवा के बैरियों को तो उस<sup>१</sup> की चापलूसी  
करनी पड़े  
पर वे सदाकाल लौं बने रहें ॥
- १६ और वह उन को उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाए  
और मैं चटान में के मधु से उन को तुप्त करूँ ॥

आसाप का भजन ।

८२. परमेश्वर की सभा में परमेश्वर  
ही खड़ा है

- वह ईश्वरों के मध्य में न्याय करता है ॥
- २ तुम लोग कब लौं टेढ़ा न्याय करते  
और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे । सेला ॥
- ३ कंगाल और बपमूए का न्याय चुकाओ  
दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो ॥
- ४ कंगाल और निर्धन को बचा लो  
दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ ॥
- ५ वे न तो कुछ समझने और न कुछ भूझते  
पर अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं  
पृथिवी की सारी नेव हिल जाती है ॥
- ६ मैं ने कहा था कि तुम ईश्वर हो  
और सब के सब परमप्रधान के पुत्र हो  
तौभी तुम मनुष्यों की नाईं मरोगे  
और किसी हाकिम के समान उतारे जाओगे ॥
- ८ हे परमेश्वर उठ पृथिवी का न्याय कर  
क्योंकि सारी जातियों को अपने भाग में तू ही  
लेगा ॥

गीत । आसाप का भजन ।

८३. हे परमेश्वर मौन न रह  
हे ईश्वर क्षुप न रह और न सुस्ता

- क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं १  
और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है ॥
- वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते ३  
और तेरे रक्षित<sup>२</sup> लोगों के विरुद्ध युक्तियाँ  
निकालते हैं ॥
- उन्होंने ने कहा आओ हम उन का ऐसा नाश न करें ४  
कि राज्य<sup>३</sup> न रहे  
और इस्राएल का नाम आगे के स्मरण न रहे ॥
- उन्होंने ने एक मन होकर युक्ति निकाली ५  
और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है ॥
- ये तो एदोम के तंबूवाले ६  
और इश्माइली मोआबी और हुआ  
गवाली अम्मेनी अमालेकी ७  
और सोर समेत पलिशती हैं ॥
- इन के संग अश्शूरी भी मिल गये ८  
उन से भी लोतबंशियों का सहारा मिला है । सेला ॥
- इन से ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से ९  
और कीशोन नाले में सीसरा और याबीन से  
किया था ॥
- जो एन्दोर में नाश हुए १०  
और भूमि के लिये खाद बन गये ॥
- इन के रईसों को अरोध और जेब सरीखे ११  
और इन के सब प्रधानों को जेबह और सल्मुजा के  
समान कर दे ॥
- जिन्होंने ने कहा था १२  
कि हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप  
हा जाएं ॥
- हे मेरे परमेश्वर इन को बवण्डर की धूलि १३  
वा पवन से उड़ाये हुए भूसे सरीखे कर दे ॥
- उस आग की नाईं जो बन को भस्म करती १४  
और उस लौ की नाईं जो पहाड़ों को जला  
देती है
- तू इन्हें अपनी आंधी से भगा १५  
और अपने बवण्डर से घबरा दे ॥
- इन के मुँह को अति लज्जित कर १६  
कि हे यहोवा ये तेरे नाम को झूठें ॥
- ये सदा लौं लज्जित और घबराये रहें १७

(१) मूल में उस ।

पा० ६६

(२) मूल में छिपाये हुए । (३) मूल में जाति ।

१८ इन के मुंह काले हों और इन का नाग हो जाए  
जिस से ये जानें कि केवल तू जिस का नाम  
यहोवा है

सारी पृथिवी के ऊपर परमप्रधान है ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । गिलोथू में । कोरहवंशियों  
का । भजन ।

८४. हे सेनाओं के यहोवा  
तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं ॥

१ मेरा जीव यहोवा के आंगनों की आभिलाषा करते  
करते मूर्च्छित हो चला  
मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार  
रहे हैं ॥

२ हे सेनाओं के यहोवा हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर  
तेरी वेदियों में

गौरैया को बसेरा  
और शूपाबेनी को घोंसला मिला तो है  
जिस में वह अपने बच्चे रखते ॥

४ क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं  
वे तेरी स्तुति निरन्तर करते रहेंगे । सेला ॥

५ क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति  
पाता<sup>१</sup>

और वे जिन को सिंघों की सड़क की सुधि  
रहती है ॥

६ वे रोने की तराई में जाते हुए उस को सोंतों का  
स्थान बनाते हैं

फिर बरसात की अगली वृष्टि उस में आशिष ही  
आशिष उपजाती है ॥

७ वे बल पर बल पाते जाते हैं  
उन में से हर एक जन सिंघों में परमेश्वर को  
अपना मुंह दिखाएगा ॥

८ हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन  
हे याकूब के परमेश्वर कान लगा । सेला ॥

९ हे परमेश्वर हे हमारी ढाल टाँच कर  
और अपने आभाषक का मुख देख ॥

१० क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के  
हजार दिन से उत्तम है

दुष्टों के डेरों में बास करने से  
अपने परमेश्वर के भजन की डेवढी पर खड़ा  
रहना ही मुझे अधिक भावता है ॥

११ क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है

यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा  
और जो लोग खरी चाल चलते हैं उन से वह  
कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा ॥

हे सेनाओं के यहोवा

१२

क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा  
रखता है ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । कोरहवंशियों का । भजन ।

८५. हे यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न  
हुआ

याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है ॥

तू ने अग्नी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया  
और उस के सारे पाप को ढांप दिया है । सेला ॥

२

तू ने अपने सारे रोष को शान्त किया  
और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है ॥

३

हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हम को फेर  
और अग्नी रिस हम पर से दूर कर ॥

४

क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा

क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी लो कोप करता रहेगा ॥

५

क्या तू हम को फिर न जिलाएगा

कि तेरी प्रजा तुझ में आनन्द करे ॥

६

हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा

और तू हमारा उद्धार कर<sup>२</sup> ॥

७

मैं कान लगाये रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है

वह तो अपनी प्रजा से जो उस के भक्त हैं शांति  
की बातें कहेगा

८

पर वे फिरके मूर्खता करने न लगें ॥

निश्चय उस के डरवैयों के उद्धार का समय निकट है

तब हमारे देश में माहमा का निवास हागा ॥

९

करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है

धर्म और मेल ने आपस में जुम्बन किया है ॥

१०

पृथिवी में से सच्चाई उगती

और स्वर्ग से धर्म भुकता है ॥

११

फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा

और हमारी भूमि अग्नी उज देगी ॥

१२

धर्म उस के आगे आगे चलेगा

और उस के पांवा के चिन्हों को हमारे लिये मांग  
बनाएगा ॥

१३

दाऊद की प्रार्थना ।

८६. हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले  
क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ ॥

(१) मल में जिस की शक्ति तुझ में है ।

(२) मल में अपना उद्धार हमें दे ।

- २ मेरे प्राण की रक्षा कर क्योंकि मैं भक्त हूँ  
तू जो मेरा परमेश्वर है सो अपने दास का जिस  
का भरोसा तुझ पर है उद्धार कर ॥
- ३ हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर  
क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ ॥
- ४ अपने दास के मन को आन्दित कर  
क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर  
लगातार हूँ ॥
- ५ क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करनेहारा है  
और जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिये तू  
अति करुणामय है ॥
- ६ हे यहोवा मेरा प्रार्थना का ओर कान लगा  
और मेरे गिड़गिड़ाने का ध्यान से सुन ॥
- ७ संकट के दिन मैं तुझ को पुकारूंगा  
क्योंकि तू मेरी सुन लेगा ॥
- ८ हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं  
और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं ॥
- ९ हे प्रभु जितनी जातियों को तू ने बनाया है सब  
आकर तेरे साम्हने दण्डवत् करेंगी  
और तेरे नाम की महिमा करेंगी ॥
- १० क्योंकि तू महा और आश्चर्य्य कर्म करनेहारा है  
केवल तू ही परमेश्वर है ॥
- ११ हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा तब मैं तेरे सत्य  
मार्ग पर चलूंगा  
मुझ को एकचित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूँ ॥
- १२ हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर मैं अपने सारे मन से तेरा  
धन्यवाद करूंगा  
और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा ॥
- १३ क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बढ़ी है  
और तू ने मुझ को अधोलोक के तल में जाने से  
बचा लिया है ॥
- १४ हे परमेश्वर अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे  
और बलात्कारियों का समाज मेरे प्राण का  
खोजी हुआ  
और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते ॥
- १५ पर हे प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है  
तू विलम्ब से कोप करनेहारा और अति करुणा-  
मय है ॥
- १६ मेरी ओर फिरके मुझ पर अनुग्रह कर  
अपने दास को तू शाक्त दे  
और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर ॥
- १७ मेरी भलाई का लक्षण दिखा

जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो  
क्योंकि हे यहोवा तू ने आप मेरी सहायता की  
और मुझे शान्ति दी है ॥

कारहर्वाशियों का भजन । गीत ।

८७. यहोवा पवित्र पर्वतों पर की  
अपनी डाली हुई नेब में  
और सिन्धुन के फाटकों में २  
याकूब के बारे निवासियों से बढ़कर  
प्रीति रखता है ॥  
हे परमेश्वर के नगर ३  
तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं<sup>१</sup> । सेला ॥  
मैं अपने चिन्हारों की चर्चा चलाते समय रहब ४  
और बाबेल की भी चर्चा करूंगा  
पलिश्त सार आर कूश को देखो  
यह वहां उत्पन्न हुआ है  
आर सिन्धुन के विषय यह कहा जाएगा कि ५  
फुलाना फुलाना मनुष्य उस में उत्पन्न हुआ  
और परमप्रधान आप ही उस को स्थिर रखेगा ॥  
यहोवा जब देश के लोगों के नाम लिखकर ६  
गिन लेगा तब यह कहेगा  
कि यह वहां उत्पन्न हुआ है । सेला ॥  
गानहारे और नाचनेहारे दोनों कहेंगे  
कि हमारे सारे सोते तुझी में पाये जाते हैं ॥  
गीत । कोरहर्वाशियों का भजन प्रधान बजानेहारे के लिये ।  
महलतलगनात में । एज्राहर्वाशियों हेमान का मस्कील ।

८८. हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा  
मैं दिन को और रात को तेरे आगे  
चिन्ता आया हूँ ॥

- मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे २  
मेरे चिन्ताने की ओर कान लगा ॥  
क्योंकि मेरा जीव क्लेश से भरा हुआ है ३  
और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है ॥  
मैं कबर में पड़नेहारों में गिना गया ४  
मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ ॥  
मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया<sup>२</sup> हूँ ५  
और जो घात होकर कबर में पड़े हैं  
जिन को तू फिर स्मरण नहीं करता  
और वे तेरी सहायता रहित हैं<sup>३</sup>

(१) वा तेरी मंगनी महिमा के साथ हुई ।

(२) मूल में स्वाधीन ।

(३) मूल में तेरे हाथ से कटे हुए ।



- उन के समान मैं हुआ हूँ ॥  
 ६ तू ने मुझे गड़हे के तल ही में  
 अंधेरे और गहिरें स्थान में रक्खा है ॥  
 ७ तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है  
 और तू ने अपने सारे तरंगों से मुझे दुःख दिया  
 है । सेला ॥  
 ८ तू ने मेरे चिन्हारों का मुझ से दूर किया  
 और मुझ को उन के लेखे बिना किया है  
 मैं बन्द हूँ और निकल नहीं सकता ।  
 ९ दुःख भोगते भोगते मेरी आँख धुन्धला  
 गई है ॥  
 हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने  
 हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ ॥  
 १० क्या तू मुझे के लिये अद्भुत काम करेगा  
 क्या भरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे । सेला ॥  
 ११ क्या कबर में तेरी करुणा का  
 वा विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन  
 किया जाएगा  
 १२ क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में  
 वा तेरा धर्म बिसरने की दशा<sup>१</sup> में जाना  
 जाएगा ॥  
 १३ पर हे यहोवा मैं ने तेरी दोहाई दी है  
 और ओर के मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी ॥  
 १४ हे यहोवा तू मुझ को क्यों छोड़ता है  
 तू अपना मुख मुझ से क्यों फेरे<sup>२</sup> रहता है ॥  
 १५ मैं बचपन ही से दुःखी बन अधमूआ हूँ  
 तुझ से भय खाते खाते मैं अति व्याकुल हो  
 गया हूँ ॥  
 १६ तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है  
 उस भय से मैं मिट गया हूँ ।  
 १७ वह दिन भर जल की नाई मुझे घेरे रहता है  
 वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है ॥  
 १८ तू ने मित्र और भाईबन्धु दोनों का मुझ से दूर  
 किया है  
 मेरा चिन्हार अंधकार ही है ॥

प्लान एज्राहवंशी का मस्कील

८९. मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय  
 सदा गाता रहूँगा  
 मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी लों जताता  
 रहूँगा ॥

(१) मूल में देश ।

(२) मूल में छिपाये ।

- क्योंकि मैं ने कहा है कि करुणा सदा बनी २  
 रहेगी  
 तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा ॥  
 मैं ने अपने चुने हुए से वाचा बांधी ३  
 मैं ने अपने दास दाऊद से किरिया खाई है  
 कि मैं तेरे वंश को सदा लों स्थिर रखूँगा ४  
 और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी लों बनाये  
 रखूँगा । सेला ॥  
 और हे यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की ५  
 और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा  
 होगी ॥  
 क्योंकि आकाशमण्डल में यहोवा के तुल्य कौन ६  
 ठहरेगा  
 बलवंतों<sup>३</sup> के पुत्रों में से कौन है जिस के साथ  
 यहोवा की उपमा दी जायगी ॥  
 ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यन्त त्रास के ७  
 योग्य  
 और अपने चारों ओर सब रहनेहारों से अधिक  
 भययोग्य है ॥  
 हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ८  
 हे याहू तेरे तुल्य कौन सामर्थी है तेरी सच्चाई  
 तो तेरे चारों ओर है ॥  
 समुद्र के गर्ब को तू ही तोड़ता ९  
 जब उस के तरंग उठते हैं तब तू उन को शान्त  
 कर देता है ॥  
 तू ने रहब को घात किये हुए के समान कुचल डाला १०  
 और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तिरर  
 बित्तर किया है ॥  
 आकाश तेरा है पृथिवी भी तेरी है ११  
 जगत और जो कुछ उस में है उसे तू ही ने स्थिर  
 किया है ॥  
 उत्तर और दक्खिन को तू ही ने सिरजा १२  
 ताबोर और हेमोन तेरे नाम का जयजयकार  
 करते हैं ॥  
 तेरी भुजा बलवन्त है १३  
 तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दहिना हाथ प्रबल  
 है ॥  
 तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है १४  
 करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती हैं ॥  
 क्या ही घन्य है वह समाज जो आनन्द १५  
 के महा शब्द को पहिचानता है ॥

(३) वा ईश्वरों ।

- हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में  
चलते हैं ॥
- १६ वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं  
और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं ॥
- १७ क्योंकि तू उन के बल की शोभा है  
और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा  
करेगा ॥
- १८ क्योंकि हमारी ढाल यहोवा के वश में है  
हमारा राजा इस्राएल के पवित्र के हाथ में है ॥
- १९ एक समय तू ने अपने भक्त को दर्शन देकर  
बातें की  
और कहा मैं ने सहायता करने का भार एक वीर  
पर रक्खा  
और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है ॥
- २० मैं ने अपने दास दाऊद को लेकर  
अपने पवित्र तेल से उस का अभिषेक किया है ॥
- २१ मेरा हाथ उस के साथ बना रहेगा  
और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी ॥
- २२ शत्रु उस को तंग करने न पाएगा  
और न कुटिल जन उस को दुःख देने पाएगा ॥
- २३ और मैं उस के द्रोहियों को उस के साम्हने से  
नाश करूंगा  
और उस के बैरियों पर विपत्ति डालूंगा ॥
- २४ पर मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी  
और मेरे नाम के द्वारा उस का सींग ऊंचा हो  
जाएगा ॥
- २५ और मैं समुद्र को उस के हाथ के नीचे  
और महानदी को उस के दहिने हाथ के नीचे कर  
दूंगा ॥
- २६ वह मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता  
मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चटान है ॥
- २७ फिर मैं उस को अपना पहिलौटा  
और पृथिवी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा ॥
- २८ मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाये रहूंगा  
और मेरी वाचा उस के लिये अटल रहेगी ॥
- २९ और मैं उस के वंश को सदा बनाये रखूंगा  
और उस की राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा  
रहेगी ॥
- ३० यदि उस के वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें  
और मेरे नियमों के अनुसार न चलें  
यदि वे मेरी विधियों को उल्लंघन करें  
और मेरी आज्ञाओं को न मानें

- तो मैं उन के अपराध का दण्ड सेट्टे से  
और उन के अधर्म का दण्ड कोड़ों से दूंगा ।  
पर मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा  
और न सच्चाई त्यागकर झूठा ठहरूंगा ॥
- ३२ मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा  
और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न  
बदलूंगा ॥
- एक बार मैं अपनी पवित्रता की किरिया खा चुका हूँ  
और दाऊद को कभी धोखा न दूंगा ॥
- उस का वंश सर्वदा रहेगा  
और उस की राजगद्दी सूर्य की नाईं मेरे सन्मुख  
ठहरी रहेगी ॥
- वह चन्द्रमा की नाईं सदा बना रहेगा  
आकाशमण्डल में का सच्ची विश्वासयोग्य है ।  
सेला ॥
- तौमी तू ने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और तज  
दिया  
और उस पर अति रोप किया है ॥
- तू अपने दास के साथ की वाचा से बिनाया  
और उस के मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध  
किया है ॥
- तू ने उस के सब बाइयों को तोड़ डाला  
और उस के गर्दों को उजाड़ दिया है ॥
- सब बटोही उस को लूट लेते हैं  
और उस के पड़ोसियों से उस की नामधराई  
होती है ॥
- तू ने उस के द्रोहियों को प्रबल<sup>१</sup> किया  
और उस के सब शत्रुओं को आनन्दित किया है ॥
- फिर तू उस की तलवार की धार को मोड़  
देता है  
और युद्ध में उस के पांव जमने नहीं देता ॥
- तू ने उस का तेज हर लिया<sup>२</sup>  
और उस के सिंहासन को भूमि पर पटक  
दिया है ॥
- तू ने उस की जवानी को घटाया  
और उस को लज्जा से ढांप दिया है । सेला ॥
- हे यहोवा तू कब लौ लगातार मुंह फेरे<sup>३</sup> रहेगा  
तेरी जलजलाहट कब लौ आग की नाईं भड़की  
रहेगी ॥

(१) मूल में द्रोहियों का दहिना हाथ ऊंचा । (२) मूल में बन्द  
किया । (३) मूल में अपने को छिपाये ।

- ४७ मेरा स्मरण तो कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ  
तू ने सारे मनुष्यों को क्यो व्यर्थ सिरजा है ॥
- ४८ कौन पुरुष सदा अमर रहेगा ?  
क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा  
सकता । सेला ॥
- ४९ हे प्रभु तेरी प्राचीनकाल की कठिया कहां रही  
जिस के विषय तू ने अपनी सच्चाई की कारिया  
दाऊद से खाई ॥
- ५० हे प्रभु अपने दासों की नामघराई की सुधि कर

(१) मूल में जीता रहेगा और मृत्यु न देखेगा ।

- मैं तो सारी सामर्थी जातियों का बोझ लिये<sup>२</sup>  
रहता हूँ ॥
- तेरे उन शू आं ने तो हे यहावा ५१  
तेरे अभिषिक्त के पीछे पढ़कर उस की<sup>३</sup> नामघराई  
की है ॥
- यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा ५२  
आमेन फिर आमेन ॥

(२) मूल में अपनी गोद में लिये ।

(३) मूल में तेरे अभिषिक्त के पदचिन्हों की ।

## चौथा भाग ।

परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना ।

- ६० हे प्रभु तू पीढ़ी पीढ़ी  
हमारे लिये धाम बना है ॥
- २ उस से पहिले कि पहाड़ उत्पन्न हुए  
और तू ने पृथिवी और जगत को रचा  
बरन अनांकाल से अनन्तकाल लो तू ही  
ईश्वर है ॥
- ३ तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता  
और कहता है कि हे आदमियो लौट आओ ॥
- ४ क्योंकि हजार बरस तेरी दृष्टि में  
बीते हुए कल के दिन के  
वा रात के एक पहर के सरीखे हैं ॥
- ५ तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है वं स्वप्न  
ठहरते हैं  
भोर को वे बढ़नेहारी घास के सरीखे होते हैं ॥
- ६ वह भोर को फूलती और बढ़ती है  
और सांभ तक कटकर मुर्झा जाती है ॥
- ७ क्योंकि हम तेरे कोप से नाश हुए  
और तेरी जलजलाहट से घबरा गये हैं ॥
- ८ तू ने हमारे अधर्म के कामों को अपने  
सन्मुख  
और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की  
ज्योति में रक्खा है ॥
- ९ क्योंकि हमारे सारे दिन तेरे रोष में बीत जाते हैं

- हम अपने बरस शब्द की झाई बिताते हैं ॥  
हमारी आयु के बरस सत्तर तो होते हैं १०  
आर चाहे बल के कारण अस्सी बरस भी हों  
तौभी उन पर का घमण्ड कष्ट और व्यर्थ बात  
ठहरता है  
क्याकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते  
रहत हैं ॥
- तेरे कोप की शक्ति को ११  
और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन  
समझता ॥
- हम को अपने दिन गिनने की समझ दे १२  
कि हम बुद्धिमान हो जाएं ? ॥
- हे यहोवा लौट आ कब लो १३  
और अपने दासों पर तरस खा ॥
- भोर को हमें अपनी कठिया से तृप्त कर १४  
कि हम जीवन भर जयजयकार और आनन्द  
करते रहें
- जितने दिन तू हमें दुःख देता आया और जितने १५  
बरस हम क्लेश भोगते आये हैं
- उतने बरस हम को आनन्द दे ॥
- तेरा काम तेरे दासों को १६  
और तेरा प्रताप उन की सन्तान पर प्रगट हो ॥  
और हमारे परमेश्वर यहोवा का मनोहरता हम १७  
पर प्रगट हो

(१) मूल में जब । (२) मूल में बुद्धिबाला मन ले आये ।

तु हमारे हाथों का काम हमारे लिये हठ कर  
हमारे हाथों के काम को हठ कर ॥

**६१. जो** परमप्रधान के छाये हुए स्थान  
में बैठा रहे

सो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा ॥

२ मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा  
शरणस्थान और गढ़ है

वह मेरा परमेश्वर है मैं उस पर भरोसा रखूंगा ॥

३ वह तो तुझे बहेलिये के जाल से  
और महामरी से बचाएगा ॥

४ वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा  
और तू उस के पंखों के नीचे शरण पाएगा  
उस की सच्चाई तेरे लिये ढाल और झिलम  
उदरेगी ॥

५ तू न तो रात के भय से  
और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है  
६ न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है डरेगा  
और न उस महारोग से जो दिन दुपहरी  
उजाड़ता है ॥

७ तेरे निकट हजार  
और तेरी दहिनी ओर दस हजार गिरेंगे  
पर वह तेरे पास न आएगा ॥

८ तू आंखों से निहारके  
दुष्टों के कामों के बदले को केवल देखेहीगा ॥

९ हे यहोवा तू मेरा शरणस्थान ठहरा है  
तू ने जा परमप्रधान को अपना धाम मान लिया है  
१० इसलिये कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी  
न कोई दुःख तेरे डरे के निकट आएगा ॥

११ क्योंकि वह अपने दूतों का तेरे निमित्त  
आशा देगा

कि जहा कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें ॥

१२ वे तुझ का हाथों हाथ उठा लेंगे  
न हो कि तेरे गंवों में पत्थर से ठेस लगे ॥

१३ तू सिंह और नाग को कुचलेगा  
तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा ॥

१४ उस ने जो मुझ से स्नेह किया है इसलिये मैं  
उस को छुड़ाऊंगा

मैं उस को ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उस  
ने मेरे नाम को जान लिया है ॥

१५ जब वह मुझ को पुकारे तब मैं उस की सुनूंगा

संकट में मैं उस के संग रहूंगा

मैं उस को बचाकर उस की महिमा बढ़ाऊंगा ॥

मैं उस को दीर्घायु से तृप्त करूंगा

१६

और अपने किये हुए उद्धार का दर्शन दिलाऊंगा ॥

भजन । विश्राम क दिन के लिये गीत ।

**६२. यहोवा का धन्यवाद करना**  
भला है

हे परमप्रधान तेरे नाम का भजन गाना

प्रातःकाल को तेरी करूंगा

२

और रात रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना

दस तारवाले बाजे और सारंगी पर

३

और शीशा पर गम्भीर स्वर से गाना भला है ॥

क्योंकि हे यहोवा तू ने मुझ को अपने काम  
से आनन्दित किया है

४

और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जयजयकार  
करूंगा ॥

हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं

५

तेरी कल्पनाएं बहुत गम्भीर हैं ॥

पशु सरीखा मनुष्य इस को नहीं समझता

६

और मूर्ख इस का विचार नहीं करता ॥

दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते

७

और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं

यह इसलिये होता है कि वे सर्वदा के लिये नाश  
हो जाएं ॥

पर हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा ॥

८

क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु

९

तेरे शत्रु नाश होंगे

सब अनर्थकारी तित्तर बित्तर होंगे

पर मेरा सींग तू ने बेनैले बैल का सा ऊंचा किया है

१०

मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ ॥

और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि दे करके

११

और उन कुकर्मियों का ढाल जो मेरे विरुद्ध

उठे थे सुनकर सन्तुष्ट हुआ हूँ

धर्मी लोग खजर की नाई फूलें फलेंगे

१२

और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे ॥

वे यहोवा के भवन में रोषे जाकर

१३

हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलें फलेंगे ॥

वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे

१४

और रस भरे और लहलहाते रहेंगे

जिस से यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है

१५

वह मेरी चटान है और उस में कुटिलता कुछ

भी नहीं ॥

**६३. यहोवा** राजा हुआ है उस ने माहात्म्य का पहिरावा पहिना है यहोवा पहिरावा पहिने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे है

फिर जगत स्थिर है वह नहीं टलने का ॥

२ हे यहोवा तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है तू सर्वदा से है ॥

३ हे यहोवा महानदों का कोलाहल हो रहा है महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है

महानद गरजते हैं ॥

४ महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से

विराजमान यहोवा अधिक महान है ॥

५ तेरी चितौवनियां अति विश्वात्मयोग्य हैं

हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही कबती है ॥

**६४. हे यहोवा** हे पलटा लेनेहारे ईश्वर हे पलटा लेनेहारे ईश्वर अपना तेज दिखा ॥

२ हे पृथिवी के न्यायी उठ धर्मदियों का बदला दे ॥

३ हे यहोवा दुष्ट लोग कब लों

दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे ॥

४ वे बकते और टिगई की बातें बोलते हैं सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं ॥

५ हे यहोवा वे तेरी प्रजा को पीस डालते वे तेरे निज भाग को दुःख देते हैं ॥

६ वे विधवा और परदेशी का घात करते और बपमुओं को मार डालते हैं

७ और कहते हैं कि याह न देखेगा याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा

८ तुम जो प्रजा में पशुसरीखे हो विचार करो और हे मूर्खों तुम कब बुद्धिमान हो जाओगे ॥

९ जिस ने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता

जिस ने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता ॥

१० जा जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है

क्या वह न समझाएगा ॥

११ यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता तो है कि वे सांस ही हैं ॥

१२ हे याह क्या ही धन्य है यह पुरुष जिस को तू ताड़ना देता

और अपनी व्यवस्था सिखाता है ॥

क्योंकि तू उस को विपत्ति के दिनों के रहते तब लों चैन देता रहता है १३

जब लों दुष्ट के लिये गड़हा खोदा नहीं जाता ॥

क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा १४

पर न्याय पर फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा १५

और सारे सीधे मनवाले उस के पीछे पीछे हो लेंगे कुकर्तियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा १६

मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन साम्हना करेगा ॥

यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता ॥ १७

जब मैं ने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा १८

तब हे यहोवा मैं तेरी करुणा से थाम लिया गया ॥

जब मेरे मन में बहुत सी चिन्ताएं होती हैं १९

तब हे यहोवा तेरी दी हुई शान्ति से मुझ को सुख होता है ॥

क्या तेरे और खलता के सिंहासन के बीच सन्धि होगी २०

जिस की ओर से कानून की रीति उत्पात होता है ॥

वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं २१

और निर्दोष को प्राणदण्ड देते हैं ॥

पर यहोवा मेरा गढ़ २२

और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चटान ठहरा है

और उस ने उन का अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है २३

और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा सत्यानाश करेगा ।

हमारा परमेश्वर यहोवा उन को सत्यानाश करेगा ॥

**६५. आओ** हम यहोवा के लिये ऊंचे स्वर से गाएं

अपने उद्धार की चटान का जयजयकार करें ॥

हम धन्यवाद करते हुए उस के सन्मुख आएँ । २

और भजन गाते हुए उस का जयजयकार करें ॥

क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है ३

और सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है ॥

पृथिवी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं ४

और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं ॥

समुद्र उस का है और उसी ने उस को बनाया ५

और स्थल भी उसी के दाह का रचा है ॥

आओ हम झुककर दण्डवत् कर ६

- और अपने कर्त्ता यहोवा के साम्हने घुटने टेकें ॥  
 ७ क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है  
 और हम उस की चराई की प्रजा और उस के  
 हाथ की मेढ़ें हैं  
 भला होता कि आज तुम उस की कसत सुनते ॥  
 ८ अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा  
 मरीबा में  
 बा मस्ता के दिन जंगल में हुआ था ॥  
 ९ उस समय तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा  
 उन्हीं ने मुझ को जांचा और मेरे काम को  
 भी देखा ॥  
 १० चात्तीस बरसों में उस पांढी के लोगों से रूठा  
 रहा  
 और मैं ने कहा ये तो भरमनेहारे मन के हैं  
 और इन्हीं ने मेरे भागों को नहीं पहचाना ॥  
 ११ इस कारण मैं ने कोप में आकर किरिया खाई  
 कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश न करने पाएंगे ॥

## ६६. यहोवा के लिये नया गीत गाओ हे सारी पृथिवी के लोगो

- २ यहोवा का गीत गाओ ॥  
 यहोवा का गीत गाओ उस के नाम के धन्य  
 कहे  
 दिन दिन उस के किये हुये उद्धार का शुभसमाचार  
 सुनाते रहे ॥  
 ३ अन्यजातियों में उस की महिमा का  
 और देश देश के लोगों में उस के आश्चर्यकर्मों  
 का वर्णन करो ॥  
 ४ क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है  
 वह तो सारे देवताओं से अधिक भययोग्य है ॥  
 ५ क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्त ही हैं  
 पर यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है ॥  
 ६ उस के चारों ओर विभव और ऐश्वर्य्य है  
 उस के पवित्रस्थान में सामर्थ्य और शोभा है ॥  
 ७ हे देश देश के कुलो यहोवा का गुणानुवाद करो  
 यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो ॥  
 ८ यहोवा के नाम की महिमा मानो  
 भेंट लेकर उस के आगनों में आओ ॥  
 ९ पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को  
 दण्डवत् करो  
 हे सारी पृथिवी के लोगो उस के साम्हने  
 थरथराओ ॥

- जाति जाति में कहे कि यहोवा राजा हुआ है १०  
 और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं  
 वह देश देश के लोगों का न्याय सीधार्ई से  
 करेगा ॥  
 आकाश आनन्द करे और पृथिवी मगन हो ११  
 समुद्र और उस में की सारी वस्तुएं गरज उठें ॥  
 मैदान और जो कुछ उस में है सो प्रफुल्लित हो १२  
 उसी समय वन के सारे वृक्ष जयजयकार करें ॥  
 यह यहोवा के साम्हने हो क्योंकि वह आने- १३  
 हारा है ।  
 वह पृथिवी का न्याय करने को आनेहारा है  
 वह धर्म से जगत का  
 और सबार्ई से देश देश के लोगों का न्याय  
 करेगा ॥

## ६७. यहोवा राजा हुआ है पृथिवी मगन हो

- और द्वीप जो बहुतेरे हैं सो आनन्द करें ॥  
 बादल और अन्धकार उस के चारों ओर हैं २  
 उस के सिंहासन का मूल धर्म और न्याय हैं ॥  
 उस के आगे आगे आग चलती हुई ३  
 उस के द्रोहियों को चारों ओर भस्म करती है ॥  
 उस की बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ ४  
 पृथिवी देख कर थरथरा गई है ॥  
 पहाड़ यहोवा के साम्हने से ५  
 सारी पृथिवी के प्रभु के साम्हने से मोम की नाई  
 पिघल गये ॥  
 आकाश ने उस के धर्म की साक्षी दी ६  
 और देश देश के सब लोगों ने उस की महिमा  
 देखी है ॥  
 जितने खुदी हुई मूर्तियों को उपासना करते ७  
 और मूर्तों पर फूलते हैं सो लाजित हैं  
 हे सारे देवताओ तुम उसी को दण्डवत् करो ॥  
 सियोन सुनकर आनन्दित हुई ८  
 और यहूदा की बेटियां मगन हुईं  
 यह हे यहोवा तेरे नियमों के कारण हुआ ॥  
 क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथिवी के ऊपर परम- ९  
 प्रधान है  
 तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है ॥  
 हे यहोवा के प्रेमियो बुरार्ई के बैरी हो १०  
 वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता  
 और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है ॥

- ११ धर्मी के लिये ज्योति  
और सीधे मनवालों के लिये आनन्द बोया  
हुआ है ॥
- १२ हे धर्मियो यहोवा के कारण आनन्दित हो  
आर जिस पवित्र नाम से उस का स्मरण होता है  
उस का धन्यवाद करो ॥  
भजन ।

### ६८. यहोवा का नया गीत गाओ क्योंकि उस ने आश्चर्यकर्म किये हैं

- उस के दहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उस के  
लिये उद्धार किया है ॥
- २ यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित  
किया उस ने अन्यायियों की दृष्टि में अपना  
धर्म प्रकट किया है ॥
- ३ उस ने इस्राएल के घराने पर की अपनी कृपा  
और सच्चाई की सुधि ली  
और पृथिवी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमे-  
श्वर का किया हुआ उद्धार देखा है ॥
- ४ हे सारी पृथिवी के लोगो यहोवा का जयजयकार  
करो  
उमंग में आकर जयजयकार करो और भजन  
गाओ ॥
- ५ वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ  
वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ ॥
- ६ तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंककर  
यहोवा राजा का जयजयकार करो ॥
- ७ समुद्र और उस में की सारी वस्तुएं गरज उठें  
जगत और उस के निवासी महाराष्ट्र करें ॥
- ८ नदियां तालियां बजाएं  
पहाड़ मिलकर जयजयकार करें ॥
- ९ यह यहोवा के साम्हने हा क्योंकि वह पृथिवी का  
न्याय करने का आनेहारा है  
वह धर्म से जगत का  
और सीधाई से देश देश के लोगों का न्याय  
करेगा ॥

### ६९. यहोवा राजा हुआ है देश देश के लोग कांप उठें

- वह करुणों पर विराजमान है पृथिवी डोल उठे ॥  
२ यहोवा सिव्यान में महान है  
और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है ॥

- वे तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद १  
कर  
वह तो पवित्र है ॥  
राजा का सामर्थ्य न्याय से मेल रखता है ४  
तु ही ने सीधाई को स्थापित किया  
न्याय और धर्म को याकूब में तु ही ने किया है ॥  
हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो ५  
और उस के चरण की चौकी के साम्हने दण्डवत्  
करो  
वह तो पवित्र है ॥  
उस के याजकों में मूसा और हारून ६  
और उस के प्रार्थना करनेहारों में से शमूएल  
यहोवा को पुकारते थे और वह उन की सुन  
लेता था ॥  
वह बादल के खंभे में होकर उन से बातें ७  
करता था  
और वे उस की चितौनियों और उस की दी  
हुई विधियों पर चलते थे ॥  
हे हमारे परमेश्वर यहोवा तु उन की सुन लेता था ८  
तु उन के कामों का पलटा तो लेता था  
तौभी उन के लिये क्षमा करनेहारा ईश्वर  
ठहराता था ॥  
हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो ९  
और उस के पवित्र पर्वत पर दण्डवत् करो  
क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है ॥  
धन्यवाद का भजन ।

### १००. हे सारी पृथिवी के लोगो यहोवा का जयजयकार करो ॥

- आनन्द से यहोवा की सेवा करो २  
जयजयकार के साथ उस के सन्मुख आओ ॥  
निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है ३  
उसी ने हम को बनाया और हम उसी के हैं  
हम उस की प्रजा और उस को चराई की मेंडें हैं ॥  
उस के फाटकों से धन्यवाद ४  
और उस के आगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो  
उस का धन्यवाद करो और उस के नाम को धन्य  
कहो ॥  
क्योंकि यहोवा मला है उस की कृपा सदा ली ५  
और उस की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी लों बनी  
रहती है ॥

(१) या न कि हम अपने को ।

दाऊद का भजन

## १०१. मैं कबूआ और न्याय के विषय गाऊंगा

- २ हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा ॥  
मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा  
तू मेरे पास कब आएगा ?  
मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी  
चाल चलूंगा ॥
- ३ मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा  
मैं कुमार्ग पर चलनेहारों के काम से घिन रखता हूँ  
ऐसे काम में मैं न लगूंगा ॥
- ४ टेढ़ा स्वभाव मुझ से दूर रहेगा  
मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं ॥
- ५ जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उस को  
मैं सत्यानाश करूंगा  
जिस की आंखें चढ़ीं और जिस का मन घमण्डी  
है उस की मैं न सहूंगा ॥
- ६ मेरी आंख देश के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी  
रहेगी कि वे मेरे संग रहें  
जो खरे मार्ग पर चलता हो सोई मेरा टहलुआ  
होगा ॥
- ७ जो छल करता हो सो मेरे घर के भीतर न रहने  
पाएगा  
जो झूठ बोलता हो सो मेरे साम्हने बना न  
रहेगा ॥
- ८ भोर भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश  
किया करूंगा  
इसलिये कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों  
को नाश करूँ ॥

दीन जन को उस समय की प्रार्थना जब यह दुःख  
का मारा अपने शोक की बातें यहोवा के  
साम्हने खोलकर कहता हो ।

१०२. हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन  
मेरी दोहाई तुझ तक पहुंचे ॥

- २ मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझ से न फेर ले  
अपना कान मेरी ओर लगा  
जिस समय मैं पुकारूँ उसी समय फुर्ती से मेरी  
सुन ले ॥
- ३ क्योंकि मेरे दिन धूप की नाई<sup>३</sup> बिलाय गये ।  
और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं ॥

(१) मूल में उपडेलता हो ।

(२) मूल में छिपा । (३) मूल में धुप में ।

- मेरा मन झुलसी हुई घास की नाईं सूख गया ४  
और मुझे अपनी रोटों खाना भी बिभर जाता है ॥  
कहरते कहरते ५  
मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है ॥  
मैं जंगल के धनेश के समान हो गया ६  
मैं उजाड़ स्थानों के उल्लू सरीखा बन गया हूँ ॥  
मैं पड़ा जागता हूँ और गौरे के समान हो गया ७  
जो छत्र के ऊपर झंजला बैठता है ॥  
मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं ८  
जो मेर विराध की धुन में बावले हो रहे हैं सो  
मेरा नाम लेकर क्रिया खाते हैं ॥  
मैं रोटों की नाईं राख खाता और आंसू मिला- ९  
कर पानी पीता हूँ ॥  
यह तेरे क्रोध और केप के कारण हुआ १०  
क्योंकि तू ने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है ॥  
मेरी आयु टलती हुई छाया के समान है ११  
और मैं आप घास की नाईं सूख चला हूँ ॥  
पर तू हे यहोवा सदा लो बिगजमान रहेगा १२  
और जब नाम से तेरा स्मरण होता है सो पीढ़ी  
से पीढ़ी लो बना रहेगा ॥  
तू उठकर सिन्धोन पर दया करेगा १३  
क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ  
समय आ पहुंचा है ॥  
क्योंकि तेरे दास उस के पत्थरों को चाहते हैं १४  
और उस की धूल पर तरस खाते हैं ॥  
सो अन्य जातियां यहोवा के नाम का भय मानेंगी । १५  
और पृथिवी के सारे राजा तेरे प्रताप से डरेंगे ॥  
क्योंकि यहोवा सिन्धोन को फिर बसाता १६  
और अपनी माहमा के साथ दिखाई देता है ॥  
वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता १७  
और उन की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता ॥  
यह बात आनेहारी पीढ़ों के लिये लिखी जाएगी १८  
और एक जाति जा सिरजी जाएगी सो याह की  
स्तुति करेगी ॥  
क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से १९  
हृष्टि करके  
स्वर्ग से पृथिवी की ओर देखा  
कि बंधुओं का कराहना सुन २०  
और घात होनेहारों के बन्धन खोले  
और सिन्धोन में यहोवा के नाम का स्मरण हो २१  
और यरूशलेम, लानहारे ।  
यह तब हरेण में छिपाता ।





१०४. हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह  
हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू  
अत्यन्त महान है  
तू बिम्ब और ऐश्वर्य का ब्रह्म पहिने है  
२ वह उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता  
वह आकाश को तंबू के समान ताने रहता है ॥  
३ वह अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता  
और मेघों को अपना रथ बनाता  
और पवन के पंखों पर चलता है ॥  
४ वह पवनों को अपने दूत  
और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है ॥  
५ उस ने पृथिवी को आधार पर स्थिर किया  
वह सदा सर्वदा नहीं टलने की ॥  
६ तू ने उस को गहरे सागर से मानो ब्रह्म से टांप  
दिया  
जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया ॥  
७ तेरी छुड़की से वह भाग गया  
तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके  
बह गया ॥  
८ वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराहियों के मार्ग से  
उस स्थान में उतर गया  
जिसे तू ने उस के लिये तैयार किया था ॥  
९ तू ने एक सिबाना ठहराया जिस को वह नहीं  
लांघ सकता  
न फिर के स्थल को टांप सकता ॥  
१० वह नालों में सोती का बहाता है  
वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं ॥  
११ उन से मैदान के सब जीव जन्तु जल पीते हैं  
बनैले गदहे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं ॥  
१२ उन के पास आकाश के पक्षी बसेरा करते  
और डालियों के बीच से बोलते हैं ॥  
१३ वह अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है  
तेरे कामों के फल से पृथिवी तृप्त रहती है ॥  
१४ वह पशुओं के लिये घास  
और मनुष्यों के काम के लिये अन्नादि उपजाता  
और इस रीति भूमि से भोजनवस्तुएं उत्पन्न  
करता है  
१५ और दाखमधु जिस से मनुष्य का मन आनन्दित  
होता है  
और तेल जिस से उस का मुख चमकता है  
और अन्न जिस से वह संभल जाता है ॥  
१६ यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं

- अर्थात् लबानोन के देवदार जो उसी के लगाये  
हुए हैं ॥  
उन में चिड़ियाएं अपने बोंसले बनाती हैं १७  
लगलगा का बसेरा सनौबर वृक्षों में होता है ॥  
ऊंचे पहाड़ बनैले बकरों के लिये हैं १८  
और ढांगों शापानों के शरणस्थान हैं ॥  
उस ने नियत समयों के लिये चन्द्रमा को बनाया १९  
सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है ॥  
तू अंधकार करता है २०  
तब रात हो जाती है  
जिस में बन के सब जीवजन्तु घूमते फिरते हैं ॥  
जवान सिंह अहर के लिये गरजते २१  
और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं ॥  
सूर्य उदय होते ही वे चले जाते २२  
और अपनी मान्दों में जा बैठते हैं ॥  
तब मनुष्य अपने काम के लिये २३  
और संध्याकाल लों परिश्रम करने के लिये  
निकलता है ॥  
हे यहोवा तेरे काम कितने ही हैं २४  
इन सब वस्तुओं को तू ने बुद्धि से बनाया  
पृथिवी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है ॥  
वह समुद्र बढ़ा और बहुत ही चौड़ा है २५  
और उस में अनगिनत जलचारी जीव जन्तु  
क्या छोटे क्या बड़े भरे हैं ॥  
उस में जहाज भी आते जाते \* २६  
और लिब्यातान भी जिसे तू ने वहां खेलने के  
लिये बनाया है ॥  
ये सब तेरा आसरा ताकते हैं २७  
कि तू उन का आहार समय पर दिया करे ॥  
तू उन्हें देता है वे चुन लेते हैं २८  
तू मुट्टी खोलता है वे उत्तम पदार्थों से  
तृप्त होते हैं ॥  
तू मुख फेर लेता है वे घबराये जाते हैं २९  
तू उन की सांस ले लेता है उन के प्राण कूटते  
और वे मिट्टी में फिर मिल जाते हैं ॥  
फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है वे सिरजे ३०  
जाते हैं  
और तू धरती को नया कर देता है ॥  
यहोवा की महिमा सदा लों रहे ३१  
यहोवा अपने कामों से आनन्दित होवे ॥

(१) मूल में रंगनेहारे ।

(२) मूल में क्षिपाता ।

- ३२ उस के निहारते ही पृथिवी कांप उठती है  
और उस के छूते ही पहाड़ों से धूँआ निकलता  
है ॥
- ३३ मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा  
जब लो मैं बना रहूँगा तब लो अपने परमेश्वर  
का भजन गाता रहूँगा ॥
- ३४ मेरा ध्यान करना उस को प्रिय लगे  
मैं तो यहोवा के कारण आनन्दित रहूँगा ॥
- ३५ पापी लोग पृथिवी पर से मिट जाएं  
और दुष्ट लोग आगे को न रहें  
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह  
याह की स्तुति करो ? ॥

**१०५. यहोवा का धन्यवाद करो उस से**  
प्रार्थना करो  
देश देश के लोगों में उस के कामों का प्रचार  
करो ॥

- १ उस का गीत गाओ उस का भजन गाओ  
उस के सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो ॥
- २ उस के पवित्र नाम पर बड़ाई करो  
यहोवा के खोजियों का हृदय आनन्दित हो ॥
- ४ यहोवा और उस के सामर्थ्य को पूछो  
उस के दर्शन के लगातार खोजी रहो ॥
- ५ उस के किये हुए आश्चर्यकर्म स्मरण करो  
उस के चमत्कार और निर्याय स्मरण करो ॥
- ६ हे उस के दास इब्राहीम के वंश  
हे याकूब की सन्तान तुम जो उस के चुने  
हुए हो
- ७ वही हमारा परमेश्वर यहोवा है  
पृथिवी भर में उस के निर्याय होते हैं ॥
- ८ वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता  
आया है  
सो वही वचन है जो उस ने हजार पीढ़ियों के  
लिये ठहराया ॥
- ९ वह वाचा उस ने इब्राहीम के साथ बांधी  
और उस के विषय उस ने इसहाक से किरिया  
खाई ॥
- १० और उसी को उस ने याकूब के लिये विधि  
करके  
और इस्राएल के लिये यह कहकर सदा की वाचा  
करके हठ किया

- कि मैं कनानदेश तुम्ही को दूँगा  
वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा ॥
- उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे  
वरन बहुत ही थोड़े और उस देश में  
परदेशी थे ॥
- और वे एक जाति से दूसरी जाति में  
और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते तो  
रहे ॥
- पर उस ने किसी मनुष्य को उन पर अन्धेर  
करने न दिया  
और बड़ राजाओं को उन के निमित्त यह  
धमकी देता था  
कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूओ  
और न मेरे नवियों की हानि करो ॥
- फिर उस ने उस देश में अकाल डाला  
और अन्न के सारे आभार को दूर कर दिया<sup>२</sup> ॥
- उस ने यूसुफ नाम एक पुरुष को उन से पहिले  
मेजा था  
जो दास होने के लिये बेचा गया था ॥
- लोगों ने उस के पैरों में बेड़ियाँ डालकर उसे  
दुःख दिया  
वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया<sup>३</sup> ॥
- जब लो उस की बात पूरी न हुई  
तब लो यहोवा का वचन उसे तावता रहा ॥
- तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया  
देश देश के लोगों के स्वामी ने उस के बन्धन  
खुलवाये ॥
- उस ने उस को अपने भवन का प्रधान  
और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराया  
कि वह उस के हाकिमों को अपनी इच्छा के  
अनुसार बंधाए  
और पुरनियों को ज्ञान सिखाए ॥
- फिर इस्राएल मिस्र में आया  
और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा ॥
- तब उस ने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत  
बढ़ाया  
और उस के द्रोहियों से अधिक बलवन्त किया ॥
- उस ने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया  
कि वे उस की प्रजा से बैर रखने  
और उस के दासों से छुल करने लगे ॥

(२) मूल में सारी छड़ी को तोड़ दिया ।

(३) मूल में उस का जीव लोहे में समाया ।

- २६ उस ने अपने दास मूसा को  
और अपने चुने हुए हारून को मेजा ॥
- २७ उन्हो ने उन के बीच उस की और से भांति  
भांति के चिन्ह  
और हाम के देश में चमत्कार किये ॥
- २८ उस ने अन्धकार कर दिया और अंधियारा हो गया  
और उन्हो ने उस की बातों को न टाला ॥
- २९ उस ने मिस्रियों के जल को लोहू कर डाला  
और मछलियों को मार डाला ॥
- ३० मँडक उन की भूमि में बरन उन के राजा  
की कोठरियों में भी भर गये ॥
- ३१ उस ने आज्ञा दी तब डांस आ गये  
और उन के सारे देश में कुटकियां भ्र गईं ।
- ३२ उस ने उन के लिये जलवृष्टि की सन्ती बोलि  
और उन के देश में घघकती आग बरसाई ॥
- ३३ और उस ने उन की दाखलताओं और अंजीर  
के वृत्तों को  
बरन उन के देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला ॥
- ३४ उस ने आज्ञा दी तब टिड्डियां  
और अर्नागिनित कीड़े आये
- ३५ और उन्हो ने उन के देश के सारे अन्नादि  
को खा डाला  
और उन की भूमि के सब फलों को चट कर गये ॥
- ३६ उस ने उन के देश में के सब पहलौठों को  
उन के पौरुष के सब पहलौठे फल को नाश किया ॥
- ३७ वह अपने गोत्रियों को सोना चान्दी दिलाकर  
निकाल लाया  
और उन में से कोई निर्बल न था ॥
- ३८ उन के जाने से मिस्रों आनन्दित हुए  
क्योंकि उन का डर उन में समा गया था ॥
- ३९ उस ने छाया के लिए बादल फैलाया  
और रात को प्रकाश देने के लिये आग प्रगट की ॥
- ४० उन्हो ने मांगा तब उस ने बटेरें पहुँचाई  
और उन को स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया ॥
- ४१ उस ने चटान फाड़ी तब पानी बह निकला  
और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी ॥
- ४२ क्योंकि उस ने अपने पवित्र वचन  
और अपने दास इब्राहीम को स्मरण किया ॥
- ४३ वह अपनी प्रजा की हर्षित कर के  
और अपने चुने हुएों से जयजयकार कराके  
निकाल लाया
- ४४ और उन को अन्यजातियों के देश दिये

और वे और लोगों के भ्रम के फल के अधिकारी  
किये गये

कि वे उस की विधियों को मानें ४५  
और उस की व्यवस्था को पूरी करें  
याह की स्तुति करो १ ॥

१०६. याह की स्तुति करो १  
यहोवा का धन्यवाद करो

क्योंकि वह भला है

और उस की करुणा सदा की है ॥

यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन २  
कर सकता

उस का पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता ॥

क्या ही धन्य हैं वे जो न्याय पर चलते ३

और हर समय धर्म के काम करते हैं ॥

हे यहोवा तेरी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार ४  
मुझे स्मरण कर

मेरे उद्धार के लिये २ मेरी सुधि ले

कि मैं तेरे चुने हुएों का कल्याण देखूं ५

और तेरी प्रजा के आनन्द से आनन्दित होऊँ

और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊँ ॥

हम ने तो अपने पुरुखाओं की नाई ३ पाप ६  
किया

हम ने कुटिलता की हम ने दुष्टता की है ॥

मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्यकर्मों पर ७  
मन न लगाया

न तेरी अपार करुणा का स्मरण रक्खा

उन्हो ने समुद्र के तीर पर अर्थात् लाल समुद्र के  
तीर पर बलवा किया ॥

तौ भी उस ने अपने नाम के निमित्त उन का ८  
उद्धार किया

जिस से वह अपने पराक्रम को प्रसिद्ध करे ॥

तो उस ने लाल समुद्र का घुड़का और वह ९  
सुख गया

और वह उन्हें गहिरे जल के बीच से मानो जंगल  
में ले चला

और उस ने उन्हें वैरी के हाथ से उबार १०

और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया ॥

और उन के द्रोही जल में डूब गये ११

(१) मूल में हल्ललूथाह । (२) मूल में अपना उद्धार लिये हुए ।

(३) मूल में पितरों के साथ ।

- उन में से एक भी न बचा ॥  
 १२ सो उन्हों ने उस के बचनों का विश्वास किया  
 और उस की स्तुति गाने लगे ॥  
 १३ पर वे भट उस के कामों को भूल गये  
 और उस की युक्ति के लिये न उदरे ॥  
 १४ उन्हों ने जंगल में अति लालसा की  
 और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की ॥  
 १५ सो उस ने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया  
 पर उन को दुबला कर दिया ॥  
 १६ उन्हों ने छावनी में मूसा के  
 और यहावा के पवित्र जन हारून के विषय डाह  
 की ॥  
 १७ भूमि फट कर दातान को निगल गई  
 और अवीराम के भुण्ड को ग्रस लिया १ ॥  
 १८ और उन के भुण्ड में आग भड़की  
 और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गये ॥  
 १९ उन्हों ने होरेव में बकुड़ा बनाया  
 और दली हुई मूर्त्तियों को दण्डवत् की ॥  
 २० यों उन्हों ने अपनी महिमा अर्थात् ईश्वर को  
 घास खानेहार बैल की प्रतिमा से बदल डाला ॥  
 २१ वे अपने उदारकर्त्ता ईश्वर को भूल गये  
 जिस ने मिस्र में बड़े बड़े काम किये थे ॥  
 २२ उस ने तो हाम के देश में आश्चर्य्यकर्म  
 और लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किये थे ॥  
 २३ सो उस ने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश करूंगा  
 पर उस का चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान  
 में खड़ा हुआ  
 कि उस की जलजलाहट को ठण्डा करे  
 न हो कि वह उन्हें नाश कर डाले ॥  
 २४ उन्हों ने मनभावने देश को निकम्मा जाना  
 और उस के बचन की प्रतीति न की  
 २५ वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाये  
 और यहावा का कहा न माना ॥  
 २६ तब उस ने उन के विषय में किरिया खाई ४  
 कि मैं इन को जंगल में नाश करूंगा  
 २७ और इन के वंश को अन्यजातियों के बीच गिरा  
 दूंगा  
 और देश देश में तित्तर बित्तर करूंगा ॥  
 २८ वे पोरबाले बाल देवता से मिल गये  
 और मुर्दों के चढ़ाये हुए पशुओं का मांस खाने लगे ॥

(१) मूल में छिपा लिया । (२) मूल में मसा भीत के नाके में ।

(३) मूल में फेर दे । (४) मूल में हाथ उठाया ।

- यों उन्हों ने अपने कामों से उस को रिक्त दिलाई २९  
 और मरी उन में फूट पड़ी ॥  
 तब पीनहास ने उठकर न्वायदण्ड दिया ३०  
 जिस से मरी थम गई ॥  
 और यह उस के लेखे पीड़ी से पीड़ी लों ३१  
 सर्बदा के लिये धर्म मिना गया ॥  
 उन्हों ने मरीबा के सोते के पास भी यहावा का कोप ३२  
 भड़काया  
 और उन के कारण मूसा की हानि हुई ॥  
 क्योंकि उन्हों ने उस के आत्मा से बलावा किया ३३  
 तब मूसा बिन सोचे बोला ॥  
 जिन लोगों के विषय यहावा ने उन्हें आज्ञा ३४  
 दी थी  
 उन को उन्हों ने सत्यानाश न किया  
 वरन उन्हीं जातियों से हिलामिल गये ३५  
 और उन के व्यवहारों को सीख लिया  
 और उन की मूर्त्तियों की पूजा करने लगे ३६  
 और वे उन के लिये फन्दा बन गई ॥  
 वरन उन्हों ने अपने बेटे बेटियां पिशाचों के लिये ३७  
 बलि कीं  
 और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का खून किया ३८  
 जिन्हें उन्हों ने कनान की मूर्त्तियों को बलि किया  
 सो देश खून से अपवित्र हो गया ॥  
 और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गये ३९  
 और अपने काय्यों के द्वारा व्यभिचारी बन गये ॥  
 तब यहावा का कोप अपनी प्रजा पर भड़का ४०  
 और उस को अपने निज भाग से घिन आई ॥  
 सो उस ने उन को अन्यजातियों के वश में कर ४१  
 दिया  
 और उन के बैरियों ने उन पर प्रभुता की ॥  
 उन के शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया ४२  
 और वे उन के हाथ तले तब गये ॥  
 बारम्बार उस ने उन्हें छुड़ाया ४३  
 पर वे उस के विकर युक्ति करते गये  
 और अपने अधर्म के कारण दबते गये ॥  
 तौभी जब जब इन का चिन्ताना उस के कान ४४  
 में पड़ा  
 तब तब उस ने उन के संकट पर दृष्टि की  
 और उन के हित अपनी वाचा को स्मरण करके ४५  
 अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया  
 और जो उन्हें बंधुए करके ले गये थे ४६

(३१) मूल में ।

४७ उन सब से उन पर दया कराई ॥  
 हे हमारे परमेश्वर यहीवा हमारा उद्धार कर  
 और हमें अन्यजातियों में से इकट्ठा कर  
 कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें  
 और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बधाई करें ॥

इसाएल का परमेश्वर यहीवा  
 अनादिकाल से अनन्तकाल सौ धन्य है  
 और सारी प्रजा कहे आमेन  
 याह की स्तुति करो १ ॥

(१) मूल में हल्कलुयाह ।

## पांचवां भाग ।

१०७. यहीवा का धन्यवाद करो क्योंकि  
 वह भला है

और उस की कृपा सदा की है ॥  
 २ यहीवा के छुड़ाये हुए ऐसा ही कहें  
 जिन्हें उस ने द्रोही के हाथ से छुड़ा लिया है  
 ३ और उन्हें देश देश से  
 पूरब पच्छिम उत्तर और दक्खिन से<sup>१</sup> इकट्ठा  
 किया है ॥  
 ४ वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटके जाते थे,  
 और कोई बसा हुआ नगर न पाया ॥  
 ५ भूख और प्यास के मारे  
 वे विकल हो गये ॥  
 ६ तब उन्होंने ने संकट में यहीवा की देहाई दी  
 और उस ने उन को सकेती से छुड़ाया  
 ७ और उन को ठीक मार्ग पर चलाया  
 कि वे बसे हुए नगर को पहुंचें ॥  
 ८ लोग यहीवा की कृपा के कारण  
 और उन आश्चर्यकर्मों के कारण जो वह मनुष्यों  
 के लिये करता है उस का धन्यवाद करें ॥  
 ९ क्योंकि वह अभिलाषी जीव को समुष्ट करता  
 और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है ॥  
 १० जो अंधियारे और घोर अंधकार में बैठे  
 और दुःख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे ॥  
 ११ इस लिये कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले  
 और परममन्थन की सम्मति को तुच्छ जाना ॥  
 १२ तो उस ने उन को कष्ट के द्वारा दबाया  
 वे ठोकर खाकर फिर पड़े और उन को कोई  
 सहायक न मिला ॥

तब उन्होंने ने संकट में यहीवा की देहाई दी १३  
 और उस ने सकेती से उन का उद्धार किया ॥  
 उस ने उन को अंधियारे और घोर अंधकार से १४  
 उभारा  
 और उन के बंधनों को तोड़ डाला ॥  
 लोग यहीवा की कृपा के कारण १५  
 और उन आश्चर्यकर्मों के कारण जो वह  
 मनुष्यों के लिये करता है उस का धन्यवाद  
 करें ॥  
 क्योंकि उस ने पीतल के फाटकों को तोड़ा १६  
 और लोहे के बेएहों को टुकड़े टुकड़े किया ॥  
 मूढ़ अपनी कुचाल १७  
 और अधर्म के कामों के कारण अति दुःखित  
 होते हैं ॥  
 उन का जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है १८  
 और वे मृत्यु के फाटक लों पहुंचते हैं ॥  
 तब वे संकट में यहीवा की देहाई देते हैं १९  
 और वह सकेती से उन का उद्धार करता है ॥  
 वह अपने वचन के द्वार<sup>२</sup> उन को चंगा करता २०  
 और जिस गड़हे में वे पड़े हैं उस से उभारता है ॥  
 लोग यहीवा की कृपा के कारण २१  
 और उन आश्चर्यकर्मों के कारण जो वह मनुष्यों  
 के लिये करता है उस का धन्यवाद करें,  
 और धन्यवादबलि चढ़ाएं २२  
 और जयजयकार करते हुए उस के कामों का वर्णन  
 करें ॥  
 जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते २३  
 और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं,

(१) मूल में समुद्र से ।

(२) मूल में अपना वचन भेजकर ।

- २४ वे यहोवा के कामों को  
और उन आश्चर्यकर्मों को जो वह गहिरें समुद्र  
में करता है देखते हैं ॥
- २५ क्योंकि वह आशा देता है तब प्रचण्ड बयार  
उठकर तरंगों को उठाती है ॥
- २६ वे आकाश लों चढ़ जाते फिर गहिरें में उतर  
आते हैं  
और ज़ेरा के मारे उन के जी में जी नहीं रहता ॥
- २७ वे चक्र खाते और मतवाले की नाई लड़खड़ाते हैं  
और उन की सारी बुद्धि मारी जाती है ॥
- २८ तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं  
और वह उन को सकेती से निकालता है ॥
- २९ वह आधी से नीचा कर देता है  
और तरंगों बैठ जाती हैं ॥
- ३० तब वे उन के बैठने से आनन्दित होते हैं  
और वह उन को मन चाहे बन्दर में पहुँचा देता है ॥
- ३१ लोग यहोवा की करुणा के कारण  
और उन आश्चर्यकर्मों के कारण जो वह मनुष्यों  
के लिये करता है उस का धन्यवाद करें
- ३२ और सभा में उस को सराहें  
और पुरनियों के बैठक में उस की स्तुति करें ॥
- ३३ वह नदियों को जंगल बना डालता  
और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है ॥
- ३४ वह फलवन्त भूमि को नोनी करता है  
यह रहनेहारों की दुष्टता के कारण होता है ॥
- ३५ वह जंगल को जल का ताल  
और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है ॥
- ३६ और वहाँ वह भूखों को बसाता है  
कि वे बसने के लिये नगर तैयार करें
- ३७ और खेती करें और दाख की बारियां लगाएँ  
और भांति भांति के फल उपजा लें ॥
- ३८ और वह उन को ऐसी आशिष देता है कि वे  
बहुत बढ़ जाते हैं  
और उन के पशुओं को भी वह घटने नहीं देता ॥
- ३९ फिर अंधेर विपत्ति और शोक के कारण  
वे घटते और दब जाते हैं ॥
- ४० और वह हाकिमों को अपमान से लादकर  
बेराह सुन में भटकाता है ॥
- ४१ वह दरिद्रों को दुःख से छुड़ाकर ऊँचे पर रखता  
और उन को मेड़ों के भुपड़ सा परिवार देता है ॥

(१) मूल में निगली ।

- सीधे लोग इसे देखकर आनन्दित होते हैं ४२  
और सब कुटिल लोग अपने मुँह बन्द करते हैं ॥  
जो कोई बुद्धिमान हो सो इन बातों पर ध्यान ४३  
करेगा  
और यहोवा की करुणा के कामों को विचारेगा ॥

गीत । दाऊद का मजन ।

१०८. हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है  
मैं गाऊंगा मैं अपने आत्मा<sup>२</sup> से

भी मजन गाऊंगा ॥

- हे सारङ्गी और वीणा जागो २  
मैं आप पह फटते जाग उठूंगा ॥  
हे यहोवा मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा ३  
धन्यवाद करूँगा  
और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा मजन  
गाऊंगा ॥  
क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊँची है ४  
और तेरी सच्चाई आकाशमण्डल तक है ॥  
हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर हो ५  
और तेरी महिमा सारी पृथिवी के ऊपर हो ॥  
इस लिये कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएँ ६  
तू अपने दहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले ॥  
परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है ७  
मैं प्रफुल्लित होकर शकेम को बांट लूँगा  
और सुकोत की तराई को नपवाऊँगा ॥  
गिलाद मेरा मनश्शे भी मेरा है ८  
और एप्रैम मेरे सिर का टोप  
यहूदा मेरा राजदण्ड है ॥  
मोआब मेरे धोने का पात्र है ९  
मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूँगा  
पलिश्त पर मैं जयजयकार करूँगा ॥  
मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुँचाएगा १०  
एदोम लों मेरी अगुवाई किस ने की है ॥  
हे परमेश्वर क्या तू ने हम को नहीं त्याग दिया ११  
और हे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ पयान  
नहीं करता ॥  
द्रोहियों के विरुद्ध हमारी सहायता कर १२  
क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है ॥  
परमेश्वर की सहायता से हम बीरता दिखाएंगे १३  
हमारे द्रोहियों को बही रौवेगा ॥

(२) मूल में महिमा ।

प्रधान बजानेहारे के लिये । दाऊद का । भजन ।

१०९. हे परमेश्वर तू जिस की मैं स्तुति करता हूँ सुपन रह ॥
- २ क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है
- वे मेरे विषय झूठ बोलते हैं ॥
- ३ और उन्होंने ने बैर के वचन मेरे चारों ओर कहे हैं और अकारण मुझ से लड़े हैं ॥
- ४ मेरे प्रेम के बदले में वे मुझ से विरोध करते हैं पर मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ ॥
- ५ उन्होंने ने भलाई के पलटे में मुझ से बुराई और मेरे प्रेम के बदले में बैर किया है ॥
- ६ तू उस को किसी दुष्ट के अधिकार में रख और विरोधी उस की दहिनी ओर खड़ा रहे ॥
- ७ जब उस का न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले
- और उस की प्रार्थना पाप गिनी जाए ॥
- ८ उस के दिन थोड़े हों और उस के पद को दूसरा ले ॥
- ९ उस के लड़केवाले बपमूए और उस की स्त्री विधवा हो जाए ॥
- १० और उस के लड़के मारे मारे फिरें और भीख मांगा करे
- उन को अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े ॥
- ११ महाजन फन्दा लगाकर उस का सर्वस्व ले ले और परदेशी उस की क्रमाई को लूटें ॥
- १२ कोई न हो जो उस पर करुणा करता रहे और उस के बपमूए बालकों पर कोई अनुग्रह न करे ॥
- १३ उस का वंश नाश हो दूसरी पीढ़ी में उस का नाम मिट जाए ॥
- १४ उस के पितरों का अधर्म यहीवा को स्मरण रहे और उस की माता का पाप न मिटे ॥
- १५ वह निरन्तर यहीवा के सन्मुख रहे कि वह उन का नाम पृथिवी पर से मिटा डाले ॥
- १६ क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना बिसराता था बरन दीन और दरिद्र के पीछे और मार डालने की इच्छा से खेदित मनवालों के पीछे पड़ता था ॥
- १७ वह स्याप देने में प्रीति रखता था और स्याप उस पर आ पड़े

- वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था और आशीर्वाद उस से दूर रह गया ॥
- वह स्याप देना बख की नाईं पहिनता था १८
- और वह उस के पेट में जल की नाईं और उस की हड्डियों में तेल की नाईं समा गया ॥
- वह उस के लिये ओढ़ने का काम दे १९
- और फेंटे की नाईं उस की कटि में नित्य कसा रहे ॥
- यहीवा की ओर से मेरे विरोधियों को २०
- और मेरे विरुद्ध बुरा कहनेवालों को यही बदला मिले ॥
- पर मुझ से हे यहीवा प्रभु तू अपने नाम के २१
- निमित्त बर्ताव कर
- तेरी करुणा तो बड़ी है सो तू मुझे छुटकारा दे ॥
- क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ २२
- और मेरा हृदय घायल हुआ है ॥
- मैं दलती हुई छाया की नाईं जाता रहा २३
- मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ ॥
- उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गये २४
- और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ ॥
- और मेरी तो उन लोगों से नामघराई होती है २५
- जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं ॥
- हे मेरे परमेश्वर यहीवा मेरी सहायता कर २६
- अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर ॥
- जिस से वे जानें कि यह तेरा काम है २७
- और हे यहीवा तू ही ने यह किया है ॥
- वे कोसते तो रहें पर तू आशिष दे २८
- वे तो उठते ही लज्जित हों पर तेरा दास आनन्दित हो ॥
- मेरे विरोधियों को अनादररूपी बख पहिनाया जाए २९
- और वे अपनी लज्जा को कम्बल की नाईं ओढ़ें ॥
- मैं यहीवा का बहुत धन्यवाद करूंगा ३०
- और बहुत लोगों के बीच उस की स्तुति करूंगा ॥
- क्योंकि वह दरिद्र की दहिनी ओर खड़ा रहेगा ३१
- कि उस को घात करनेहारे न्यायियों से बचाए ॥

दाऊद का भजन ।

११०. मेरे प्रभु से यहीवा की वाणी यह है कि तू मेरे दहिने बैठकर तब लों रह
- जब लो मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूँ ॥

(१) मूल में मली ।



- २ तेरे पराक्रम का राजदण्ड यहोवा सिव्यों से  
बढ़ाएगा  
तू अपने शत्रुओं के मध्य में शासन करे ॥
- ३ तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छायति  
बनते हैं  
तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान  
और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे  
पास हैं ॥
- ४ यहोवा ने किरिया खाई और न पछताएगा  
कि तू मेल्की सेदेक की रीति पर सर्वदा का  
याजक है ॥
- ५ प्रभु तेरी दहिनी ओर होकर  
अपने कंप के दिन राजाओं को चूर कर देगा ॥
- ६ वह जाति जाति में न्याय जुकाएगा  
रणभूमि लोथों से भर जायगी  
वह लम्बे चौड़े देश के प्रधान को चूर कर देगा ॥
- ७ वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पाएगा  
इस कारण वह सिर उठाएगा ॥

### १११. याह की स्तुति करो<sup>१</sup> मैं सारे मन से यहोवा का धन्यवाद

- सीधे लोगों की गोष्ठी में और मण्डली में भी  
करूंगा ॥
- २ यहोवा के काम बड़े हैं  
जितने उन से प्रसन्न रहते हैं सो उन में ध्यान  
लगाते हैं ॥
- ३ उस के काम विभवमय और ऐश्वर्यमय होते हैं  
और उस का धर्म सदा लों बना रहेगा ॥
- ४ उस ने अपने आश्चर्यकर्मों का स्मरण कराया है  
यहोवा अनुग्रहकारी और दयावन्त है ॥
- ५ उस ने अपने डरवैयों को आहार दिया है  
वह अपनी वाचा को सदा लों स्मरण रखेगा ॥
- ६ उस ने अपनी प्रजा को अन्यजातियों का भाग देने  
के लिये  
अपने कामों का प्रताप दिखाया है ॥
- ७ सच्चाई और न्याय उस के हाथों के काम हैं  
उस के सब उपदेश विश्वासयोग्य हैं ॥
- ८ वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे  
वे सच्चाई और सिद्धाई से किये हुए हैं ॥
- ९ उस ने अपनी प्रजा का उद्धार कराया है

(१) मूल में हल्लालुवाह ।

उस ने अपनी वाचा को सदा के लिये ठहराया है  
उस का नाम पवित्र और भयकोय है ॥  
बुद्धि का मूल यहोवा का भय है  
जितने उस की आज्ञाओं को मानते हैं उन की बुद्धि  
अच्छी होती है  
उस की स्तुति सदा बनी रहेगी ॥

### ११२. याह की स्तुति करो<sup>२</sup>

- व्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय  
मानता  
और उस की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है ॥  
उस का वंश पृथिवी पर पराक्रमी होगा  
सीधे लोगों की सन्तान आशिष पाएगी ॥  
उस के घर में धन संपत्ति रहती है  
और उस का धर्म सदा बना रहेगा ॥  
सीधे लोगों के लिये अन्धकार के बीच ज्योति उदय  
होती है  
वह अनुग्रहकारी दयावन्त और धर्मी होता है ॥  
जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उस का  
कल्याण होता है  
वह न्याय में अपने मुकहमें को जीतेगा ॥  
वह तो सदा लों अटल रहेगा  
धर्मी का स्मरण सदा लों बना रहेगा ॥  
वह बुरे समाचार से नहीं डरता  
उस का हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर  
रहता है ॥  
उस का हृदय संभला हुआ है सो वह न डरेगा  
वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके सन्तुष्ट होगा ॥  
उस ने उदारता से दरिद्रों को दान दिया  
उस का धर्म सदा बना रहेगा  
और उस का सींग महिमा के साथ ऊंचा किया  
जाएगा ॥  
दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा  
वह दांत पीस पीसकर गल जाएगा  
दुष्टों की लालसा पूरी न होगी<sup>२</sup> ॥

### ११३. याह की स्तुति करो,<sup>२</sup> हे यहोवा के दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो ॥

(२) मूल में नारा होगी ।

- २ यहोवा का नाम  
अब से ले सर्वदा लों धन्य कहा जाय ॥
- ३ उदयाचल से ले अस्ताचल लों  
यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है ॥
- ४ यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है  
और उस की महिमा आकाश से भी ऊंची है ॥
- ५ हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है  
वह तो ऊंचे पर विराजमान है  
और आकाश और पृथिवी पर  
दृष्टि करने के लिये भुङ्कता है ॥
- ७ वह कंगाल को मिट्टी पर से  
और दरिद्र को धूरे पर से उठाकर ऊंचा  
करता है
- ८ कि उस को प्रधानों के संग  
अर्थात् अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए ॥
- ९ वह बांभू को घर में लड़कों की आनन्द करनेहारी  
माता बनाता है  
याह की स्तुति करो १ ॥

### ११४. जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात् याकूब के घराने ने

- अन्य भाषावालों के बीच से पयान किया  
२ तब यहूदा यहोवा<sup>२</sup> का पवित्रस्थान  
और इस्राएल उस के राज्य के लोग ही गये ॥
- ३ समुद्र देखकर भागा  
यर्दन नदी उलटी बही ॥
- ४ पहाड़ मेंडों की नाईं उछलने लगे  
और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों की नाईं  
उछलने लगीं ॥
- ५ हे समुद्र तुम्हें क्या हुआ कि तू भागा  
और हे यर्दन तुम्हें क्या हुआ कि तू उलटी बही ॥
- ६ हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम मेंडों की नाईं  
और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बक-  
रियों के बच्चों की नाईं उछलीं ॥
- ७ हे पृथिवी प्रभु के साम्हने  
याकूब के परमेश्वर के साम्हने थरथरा उठ ॥
- ८ वह चटान को जल का ताल  
चकमक के पत्थर को जल का सोता बना  
डालता है ॥

११५. हे यहोवा हमारी नहीं हमारी नहीं  
अपने ही नाम की महिमा  
अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर ॥
- जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए २  
कि उन का परमेश्वर कहा रहा ॥
- हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है ३  
उस ने जो चाहा सो किया है ॥
- उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही हैं ४  
वे मनुष्यों के हाथ की बनाईं हुई हैं ॥
- उन के मुंह तो रहता पर वे बोल नहीं सकतीं ५  
उन के आंखें तो रहतीं पर वे देख नहीं सकतीं ॥
- उन के कान तो रहते पर वे सुन नहीं सकतीं ६  
उन के नाक तो रहतीं पर वे सूंघ नहीं  
सकतीं ॥
- उन के हाथ तो रहते पर वे स्पर्श नहीं कर ७  
सकतीं
- उन के पांव तो रहते पर वे चल नहीं सकतीं  
और अपने कण्ठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल  
सकतीं ॥
- जैसी वे हैं तैसे ही उन के बनानेहारे ८  
और उन पर सब भरोसा रखनेहारे भी हो  
जाएंगे ॥
- हे इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख ९  
तेरा<sup>२</sup> सहायक और ढाल बही है ॥
- हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रखो १०  
तेरा<sup>२</sup> सहायक और ढाल बही है ॥
- हे यहोवा के डरवैये यहोवा पर भरोसा रखो ११  
तेरा<sup>२</sup> सहायक और ढाल बही है ॥
- यहोवा ने हम को स्मरण किया है वह आशिष १२  
देगा
- वह इस्राएल के घराने को आशिष देगा  
वह हारून के घराने को आशिष देगा ॥
- क्या छोटे क्या बड़े १३  
जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशिष  
देगा ॥
- यहोवा तुम को और तुम्हारे लड़कों को भी १४  
अधिक बढ़ाता जाए ॥
- यहोवा जो आकाश और पृथिवी का कर्ता है १५  
उस की ओर से तुम आशिष पाये हो ॥
- स्वर्ग जो है सो तो यहोवा का है १६

(१) मूल में हल्ललूयाह ।

(२) मूल में उस ।

(३) मूल में उस का ।

- पर पृथिवी उस ने मनुष्यों को दी है ॥  
 १७ मुझे जितने चुपचाप पड़े हैं  
 सा तो याह की स्तुति नहीं कर सकते ॥  
 १८ पर हम लोग याह को  
 अब से ले सर्वदा लों धन्य कहते रहेंगे  
 याह की स्तुति करो ॥
- ११६. मैं** प्रेम रखता हूँ इस लिये कि  
 यहोवा ने  
 मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है ॥  
 २ उस ने जो मेरी ओर कान लगाया है  
 इस लिये मैं जीवन भर उस को पुकारा  
 करूँगा ॥  
 ३ मृत्यु को रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं  
 मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा  
 मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा ॥  
 ४ तब मैं ने यहोवा से प्रार्थना की  
 कि हे यहोवा बिनती सुनकर मेरे प्राण को  
 बचा ले ॥  
 ५ यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है  
 और हमारा परमेश्वर दया करनेहारा है ॥  
 ६ यहोवा भोलों की रक्षा करता है  
 मैं बलहीन हो गया था और उस ने मेरा उद्धार  
 किया ॥  
 ७ हे मेरे मन तू अपने विश्रामस्थान में लौट आ  
 क्योंकि यहाँवा ने तेरा उपकार किया है ॥  
 ८ तू ने तो मेरे प्राण को मृत्यु से  
 मेरी आंख को आंसू बहाने से  
 और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है ॥  
 ९ मैं जीते जी  
 अपने को यहोवा के साम्हने जानकर चलता  
 रहूँगा ॥  
 १० मैं ने जो ऐसा कहा सो विश्वास करके कहा  
 मैं तो बहुत ही दुःखित हुआ ॥  
 ११ मैं ने उतावली से कहा  
 कि सारे मनुष्य झूठे हैं ॥  
 १२ यहोवा ने मेरे जितने उपकार किये हैं  
 उन का बदला मैं उन को क्या दूँ ॥  
 १३ मैं उद्धार का कटोरा उठाकर  
 यहोवा से प्रार्थना करूँगा ॥  
 १४ मैं यहोवा के लिये अपनी मज्जतें

- प्रगट में उस की सारी प्रजा के साम्हने पूरी  
 करूँगा ॥  
 यहोवा के भक्तों की मृत्यु १५  
 उस के लेखे अनमोल है ॥  
 हे यहोवा मुन मैं तो तेरा दास हूँ १६  
 मैं तेरा दास और तेरी दासी का बेटा भी हूँ  
 तू ने मेरे बंधन खोल दिये हैं ॥  
 मैं तुझ को धन्यवादबल चढ़ाऊँगा १७  
 और यहोवा से प्रार्थना करूँगा ॥  
 मैं यहोवा के लिये अपनी मज्जतें १८  
 प्रगट में उस की सारी प्रजा के साम्हने  
 यहोवा के भजन के आंगनों में १९  
 हे यरूशलेम तेरे मध्य में पूरी करूँगा ।  
 याह की स्तुति करो ॥

### ११७. हे जाति जाति के सब लोगो यहोवा की स्तुति करो

- हे राज्य राज्य के सब लोगो उस की प्रशंसा करो ॥  
 क्योंकि उस की करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है २  
 और यहोवा की सच्चाई सदा की है ।  
 याह की स्तुति करो ॥

### ११८. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है

- और उस की करुणा सदा की है ॥  
 इस्राएल कहे २  
 कि उस की करुणा सदा की है ॥  
 हारून का घराना कहे ३  
 कि उस की करुणा सदा की है ॥  
 यहोवा के डरवैये कहे ४  
 कि उस की करुणा सदा की है ॥  
 मैं ने सकेती में याह को पुकारा ५  
 याह ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुँचाया ॥  
 यहोवा मेरी ओर है मैं न डरूँगा ६  
 मनुष्य मेरा क्या कर सकता ॥  
 यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में का है ७  
 सो मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके समुद्र  
 हूँगा ॥  
 यहोवा की शरण लेनी ८  
 मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है ॥  
 यहोवा की शरण लेनी ९

- १० प्रधानों पर भी मरोसा रखने से उत्तम है ॥  
सब जातिवों ने मुझ को घेर लिया है  
पर यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश  
कर डालूंगा ॥
- ११ उन्होंने ने मुझ को घेर लिया वे मुझे घेर  
बुके भी हैं  
पर यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश  
कर डालूंगा ॥
- १२ उन्होंने ने मुझे मधुमन्त्रियों की नाईं घेर लिया है  
पर कांटों की आग की नाईं बुझ गये  
यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर  
डालूंगा ॥
- १३ तू ने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूँ  
पर यहोवा ने मेरी सहायता का ॥
- १४ याह मेरा बल और मञ्जन का विषय  
और वह मेरा उद्धार ठहर गया है ॥
- १५ धर्मियों के तंजुओं में जयजयकार और उद्धार की  
ध्वनि हो रही है  
यहोवा के दहिने हाथ से पराक्रम का काम  
होता है ॥
- १६ यहोवा का दहिना हाथ महान हुआ है  
यहोवा के दहिने हाथ से पराक्रम का काम  
होता है ॥
- १७ मैं न मरूंगा जीता रहूंगा  
और याह के कामों का वर्णन करता रहूंगा ॥
- १८ याह ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की  
पर मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया ॥
- १९ मेरे लिये धर्म के द्वार खोलो  
मैं उन से प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा ॥
- २० यहोवा का द्वार यही है  
इस से धर्मों प्रवेश करने पाएंगे ॥
- २१ हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तू ने  
मेरी सुन ली  
और मेरा उद्धार ठहर गया है ॥
- २२ राजों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था  
सो कोने के सिरे का हो गया है ॥
- २३ यह तो यहोवा की ओर से हुआ  
यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है ॥
- २४ आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है  
हम इस में मगन और आनन्दित हों ॥
- २५ हे यहोवा बिनती सुन उद्धार कर  
हे यहोवा बिनती सुन सफलता कर दे ॥

- धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है २६  
हम ने तुम को यहोवा के धर से आशीर्वाद  
दिया है ॥  
यहोवा ईश्वर है और उस ने हम को प्रकाश २७  
दिया है  
यज्ञपशु को रस्सियों से वेदी के सींगों तक बांधो ॥  
हे यहोवा तू मेरा ईश्वर है सो मैं तेरा धन्यवाद २८  
करूंगा  
तू मेरा परमेश्वर है मैं तुझ को सराहूंगा ॥  
यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है २९  
और उस की करुणा सदा की है ॥

११९. क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के  
खरे हैं

- और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं ॥  
क्या ही धन्य हैं वे जो उस की चितौनियों २  
पर चलते  
और सारे मन से उस के पास आते हैं ॥  
फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते ३  
वे उस के मार्गों में चलते हैं ॥  
तू ने अपने उपदेश इस लिये दिये हैं ४  
कि वे यज्ञ से माने जाएं ॥  
भला हो कि मेरी चालचलन ५  
तेरी विधियों के मानने के लिये दृढ़ हो जाए ॥  
जब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त ६  
लगाये रहूंगा  
तब मेरी आशा न टूटेगी ॥  
जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा ७  
तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा ॥  
मैं तेरी विधियों को मानूंगा ८  
तू मुझे पूरी रीति से न तज ॥  
जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे ९  
तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से ॥  
मैं सारे मन से तेरी खोज में लगा हूँ १०  
मुझे अपनी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे ॥  
मैं ने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ११  
कि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ ॥  
हे यहोवा तू धन्य है १२  
मुझे अपनी विधियाँ सिखा ॥  
तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन १३  
मैं ने अपने मुँह से कहा है ॥

(१) मूल में तेरे मुख के ।

- १४ मैं तेरी चित्तौनियों के मार्ग से  
माने सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ ॥
- १५ मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा  
और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा ॥
- १६ मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा  
और तेरे वचन को न भूलूँगा ॥
- १७ अपने दास का उपकार कर मैं जीता रहूँगा  
और तेरे वचन पर चलता रहूँगा ॥
- १८ मेरी आँखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अनुसृत  
बात निहारूँ ॥
- १९ मैं तो पृथिवी पर परदेशी हूँ  
अपनी आशाओं को मुझ से छिपाये न रख ॥
- २० मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण  
हर समय खोदत रहता है ॥
- २१ तू ने अभिमानियों को जो स्थापित है धुड़का है  
वे तेरी आशाओं की बाट से भटके हुये हैं ॥
- २२ मेरी नामधराई और अपमान दूर कर  
क्योंकि मैं तेरी चित्तौनियों को पकड़े हूँ ॥
- २३ फिर हाकिम बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें  
करते थे  
पर तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा ॥
- २४ फिर तेरी चित्तौनियां मेरे सुखमूल  
और मेरे मंत्री हैं ॥
- २५ मैं धूल में पड़ा हूँ  
तू अपने वचन के अनुसार मुझ को जिला ॥
- २६ मैं ने अपनी चालचलन का तुझ से वर्णन किया  
और तू ने मेरी मानी  
तू मुझ को अपनी विधियों सिखा ॥
- २७ अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता  
तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा ॥
- २८ मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है  
तू अपने वचन के अनुसार मुझे सम्भाल ॥
- २९ मुझ को झूठ के मार्ग से दूर कर  
और कठुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे ॥
- ३० मैं ने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है  
तेरे नियमों की ओर मैं बिच लगाये रहता हूँ ॥
- ३१ मैं तेरी चित्तौनियों में लवलीन हूँ  
हे यहोवा मेरी आशा न तोड़ ॥
- ३२ जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा  
तब मैं तेरी आशाओं के मार्ग में दौड़ूँगा ॥
- ३३ हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे

(१) मूल में मेरा जीव ।

- तब मैं उसे अन्त खों पकड़े रहूँगा ॥  
मुझे समझ दे मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा ३४  
और सारे मन से उस पर चलूँगा ॥  
अपनी आशाओं के पथ में मुझ को चला ३५  
क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ ॥  
मेरे मन को लोभ की ओर नहीं ३६  
अपनी चित्तौनियों ही की ओर फेर ॥  
मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे ३७  
तू अपने मार्ग में मुझे जिला ॥  
तेरा जो वचन तेरे भय माननेहारों के लिये है ३८  
उस को अपने दास के निमित्त भी पूरा कर ॥  
जिस नामधराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर ३९  
क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं ॥  
देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ ४०  
अपने धर्म के कारण मुझ को जिला ॥  
हे यहोवा तेरी कठुणा और तेरा किया ४१  
हुआ उद्धार  
तेरे वचन के अनुसार मुझ को भी मिले ॥  
तब मैं अपनी नामधराई करनेहारों को कुछ उत्तर ४२  
दे सकूँगा  
क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है ॥  
मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक ४३  
क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है ॥  
तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार ४४  
सदा सर्बदा चलता रहूँगा ॥  
और मैं चौड़े स्थान में चलूँ फिरूँगा ४५  
क्योंकि मैं ने तेरे उपदेशों को सुधि रखी है ॥  
और मैं तेरी चित्तौनियों की चर्चा शमाओं के साम्हने ४६  
भी करूँगा  
और संकेच न करूँगा ॥  
और मैं तेरी आशाओं के कारण सुखी हूँगा ४७  
क्योंकि मैं उन में प्रीति रखता हूँ ॥  
और मैं तेरी आशाओं की ओर जिन में मैं प्रीति ४८  
रखता हूँ हाथ फैलाऊँगा  
और तेरी विधियों पर ध्यान करूँगा ॥  
जो वचन तू ने अपने दास को दिया है उसे ४९  
स्मरण कर  
क्योंकि तू ने मुझे आशा तो दी है ॥  
मेरे दुःख में मुझे शान्ति उसी से हुई है ५०  
क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैं जी गया हूँ ॥  
अभिमानीयों ने मुझे अत्यन्त उद्वेग में उठाया है ५१

(२) मूल में मेरे मुँह में से बिलकुल न बोल ।

- ५२ मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा ॥  
हे यहोवा मैं ने तेरे प्राचीन नियमों का स्मरण  
करके  
शान्ति पाई है ॥
- ५३ जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को लुढ़के हुए हैं  
उन के कारण मैं सन्ताप से जलता हूँ ॥
- ५४ जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ तहाँ तेरी  
विधियाँ  
मेरे गीत गाने का विषय बनी हैं ॥
- ५५ हे यहोवा मैं ने रात को तेरा नाम स्मरण किया  
और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ ॥
- ५६ यह मुझ को इस कारण हुआ  
कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था ॥
- ५७ यहोवा मेरा भाग है  
मैं ने तेरे वचनों के अनुसार चलना ठाना है ॥
- ५८ मैं ने सारे मन से तुझे मनाया  
सा अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह  
कर ॥
- ५९ मैं ने अपनी चालचलन को सोचा  
और तेरी चित्तोनियों का मार्ग लिया ॥
- ६० मैं ने तेरी आज्ञाओं के मानने में  
विलम्ब नहीं फुर्ती की ॥
- ६१ मैं दुष्टों की रास्तियों से बन्ध गया  
मैं तेरा व्यवस्था को नहीं भूला ॥
- ६२ तेरे धर्ममय नियमों के कारण  
मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को  
उठूँगा ॥
- ६३ जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर  
चलते हैं  
उन का मैं संगी हूँ ॥
- ६४ हे यहोवा तेरी कृपा पृथिवी में भरी हुई है  
तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा ॥
- ६५ हे यहोवा तू ने अपने वचन के अनुसार  
अपने दास क संग भला किया है ॥
- ६६ मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे  
क्योंकि मैं ने तेरा आज्ञाओं का विश्वास  
किया है ॥
- ६७ उस से पहले कि मैं दुःखित हुआ मैं  
भटकता था  
पर अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ ॥
- ६८ तू भला है और भला करता भी है  
मुझे अपनी विधियाँ सिखा ॥
- का० १९

- अभिमानियों ने तो मेरे बिगड़ झूठ बात गयी है ६९  
पर मैं तेरे उपदेशों को सारे मन से पकड़े रहूँगा ॥
- उन का मन मोटा हो गया है ७०  
पर मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ ॥
- मुझे जो दुःख हुआ सो मेरे लिये भला ही हुआ ७१  
जिस से मैं तेरी विधियों को सीख सकूँ ॥
- तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिये ७२  
हजारों रूपयों और सुहरा से भी भली है ॥
- तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ ७३  
मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूँ ॥
- तेरे हरवैये मुझे देख कर आनन्दित होंगे ७४  
क्योंकि मैं ने तेरे वचन पर आशा लगाई है ॥
- हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं ७५  
और तू ने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुःख  
दिया है ॥
- मुझे अपनी कृपा से शान्ति दे ७६  
क्योंकि तू ने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है ॥
- तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जी जाऊँगा ७७  
क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ ॥
- अभिमानियों की आशा टूटे क्योंकि उन्होंने ने मुझे ७८  
झूठ के द्वारा गिरा दिया  
पर मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा ॥
- जो तेरा भय मानते हैं सो मेरी आर फिरे ७९  
तब वे तेरी चित्तोनियों को समझ लेंगे ॥
- मेरा मन तेरी विधियों के विषय खरा हो ८०  
न हो कि मेरी आशा टूटे ॥
- मुझे तुझ से उद्धार पाने की आशा करते ८१  
करते जी मैं जी न रहा  
पर मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है ॥
- मेरी आँखें तेरे वचन के पूरे होने की बात जोहते ८२  
जोहते रह गईं  
और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब शांति देगा ॥
- क्योंकि मैं धुएँ में की कुप्पी के समान हो गया हूँ ८३  
तौभी तेरी विधियों को नहीं भूला ॥
- तेरे दास के कितने दिन रह गये हैं ८४  
तू मेरे पीछे पड़े हुआँ को दरइ कर देगा ॥
- अभिमानियों जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते ८५  
उन्होंने मेरे लिये गड़हे खोदे हैं ॥
- तेरी सब आज्ञाएँ विश्वासयोग्य हैं ८६  
वे लोग झूठ बोलते हुये मेरे पीछे पड़े हैं तू मेरी  
सहायता कर ॥

(१) मूल में चर्बी के समान माटा ।

- ८७ वे मुझ को पृथिवी पर से मिटा डालने ही पर थे  
पर मैं ने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा ॥
- ८८ अपना करुणा के अनुसार मुझ को जिला  
तब मैं तेरा ही हुई<sup>१</sup> चितौनी को मानगा ॥
- ८९ हे यहोवा तेरा वचन  
आकाश में सदा लों स्थिर रहता है ॥
- ९० तेरी सच्चाई पीढ़ों से पीढ़ी लों बना रहती है  
तू ने पृथिवी को स्थिर किया सो वह बना है ॥
- ९१ वे आज के दिन लों तेरे नियमों के अनुसार उहरे हैं  
क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है ॥
- ९२ यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता  
तो मैं दुःख के समय नाश हो जाता ॥
- ९३ मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा  
क्योंकि उन्हीं के द्वारा तू ने मुझे जिलाया है ॥
- ९४ मैं तेरा ही हूँ तू मेरा उद्धार कर  
क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ ॥
- ९५ दुष्ट मेरा नाश करने के लिये मेरी घात में लागे हैं  
मैं तेरी चितौनियों को विचारता हूँ ॥
- ९६ जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं उन सब को तो  
मैं ने अधूरी पाया है<sup>२</sup>  
पर तेरी आशा का अति विस्तार है ॥
- ९७ अहा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ  
दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है ॥
- ९८ तू अपनी आशाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से  
अधिक बुद्धिमान करता है  
क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं ॥
- ९९ मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ  
क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है ॥
- १०० मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ  
क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हूँ ॥
- १०१ मैं ने अपने पावों को हर एक बुरे रास्ते से रोक  
रक्खा है  
जिस से तेरे वचन के अनुसार चलूँ ॥
- १०२ मैं तेरे नियमों से नहीं हटा  
क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है ॥
- १०३ तेरे वचन मुझ को<sup>३</sup> कैसे भीटे लगते हैं  
वे मुँह में के मधु से भी भीटे हैं ॥
- १०४ तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ  
इसलिये मैं सब असत् मार्गों से बँर रखता हूँ ॥

(१) मूल में तेरे मुख की ।

(२) मूल में सारी पूजाता का मैं ने अंत देखा है ।

(३) मूल में मेरे तालू को ।

- तेरा वचन मेरे पांव के लिये दीपक  
और मेरे पथ के लिये उजियाला है ॥
- मैं ने किरिया खाई और डाना भी है  
कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा ॥
- मैं अन्यन्त दुःख में पड़ा हूँ  
हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला ॥
- हे यहोवा मेरे बच्चों को स्वेच्छावलि जानकर  
अंगीकार कर  
और अपने नियमों को मुझे सिखा ।
- मेरा प्राण निरन्तर मेरी हथेली पर रहता है  
तोभी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया ॥
- दुष्टों ने मेरे लिये फंदा लगाया है  
पर मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका ॥
- मैं ने तेरी चितौनियों को सदा के लिये अपना  
निज भाग कर लिया है  
क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं ॥
- मैं ने अपने मन का इस बात पर लगाया है  
कि अन्त लों तेरी विधियों पर सदा चलता रहूँ ॥
- मैं दुचित्तों से तो बँर रखता  
पर तेरी व्यवस्था में प्रीति रखता हूँ ॥
- तू मेरी आइ और ढाल है  
मेरी आशा तेरे वचन पर है ॥
- हे कुकर्मियों मुझ से दूर हो जाओ  
कि मैं अपने परमेश्वर की आशाओं को पकड़े रहूँ ॥
- हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल  
कि मैं जी जा रहूँ  
और मेरी आशा को न तोड़ ॥
- मुझे धाम रख तब मैं बचा रहूँगा  
और निरन्तर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाये रहूँगा ॥
- जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं  
उन सब को तू तुच्छ जानता है  
क्योंकि उन की चतुराई झूठ है ॥
- तू ने पृथिवी के सब दुष्टों के धातु क मूल के समान  
दूर किया है  
इस कारण मैं तेरी चितौनियों में प्रीति रखता  
हूँ ॥
- तेरे भय से मेरे रोएं खड़े हुये  
और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ ॥
- मैं ने तां न्याय और धर्म किया है  
तू मुझे अंधेर करनेहारों के हाथ में न छोड़ ॥
- अपने दास की मलाई के लिये जामिन हूँ  
अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाएँ ॥

- १२३ मेरी आंखें तुझ से उद्धार पाने की और तेरे धर्ममय वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते रह गई हैं ॥
- १२४ अपने दास के संग अपनी कर्णा के अनु-ार बर्ताब कर और अपनी विधियां मुझे सिखा ॥
- १२५ मैं तेरा दास हूँ तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चित्तोनियों को समझूँ ॥
- १२६ वह समय आया है कि यद्वाबा काम करे क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है ॥
- १२७ इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं में सोने से बरन कुन्दन से भी अधिक प्रीति रखता हूँ ॥
- १२८ इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब असतु मार्गों से बैर रखता हूँ ॥
- १२९ तेरी चित्तोनियां अनूप हैं इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हूँ ॥
- १३० तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है उस से भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं ॥
- १३१ मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था ॥
- १३२ जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखनेहारों से है वैसे ही मेरी आर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर ॥
- १३३ मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर जमा और कोई अनर्थ बात मुझ पर प्रभुता न करने दे ॥
- १३४ मुझे मनुष्यों के अचेर से छुड़ा ले तब मैं तेरे उपदेशों को मानूँगा ॥
- १३५ अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका और अपनी विधियां मुझे सिखा ॥
- १३६ मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है इस कारण कि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते ॥
- १३७ हे यद्वाबा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं ॥
- १३८ तू ने अपनी चित्तोनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है ॥
- १३९ मैं धुन के मारे भ्रम हुआ हूँ इस कारण कि मेरे सतानेहारे तेरे वचनों को भूल गये हैं ॥
- १४० तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है और तेरा दास उस में प्रीति रखता है ॥
- मैं छोटा और तुच्छ हूँ मैं तेरे उपदेशों को भूल नहीं गया ॥
- तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है ॥
- मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ मैं तेरी आज्ञाओं से सुख हूँ ॥
- तेरी चित्तोनियां सदा धर्ममय हैं तू मुझ को समझ दे कि मैं जीता रहूँ ॥
- मैं ने सारे मन से पुकारा हे हे यद्वाबा मेरी सुन ले
- मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा ॥
- मैं ने तुझ को पुकारा है तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरा चित्तोनियों को माना करूँगा ॥
- मैं ने पह फटने से पहिले दोहाई दी मेरी आज्ञा तेरे वचनों पर थी ॥
- मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहिले खुल गईं
- कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूँ ॥
- अपनी कर्णा के अनुसार मेरी सुन ले हे यद्वाबा अपनी रीति के अनुसार मुझे जिला ॥
- जा दुष्टता में धुन लगाते हैं सो निकट आ गये है वे तेरी व्यवस्था से दूर पड़े हैं ॥
- हे यद्वाबा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं ॥
- बहुत काल से मैं तेरी चित्तोनियों से जानता हूँ कि तू ने उन की नेष सदा के लिये डाली है ॥
- मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा
- क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया ॥
- मेरा मुकद्दमा लड़ और मुझे छुड़ा ले अपने वचन के अनुसार मुझ को जिला ॥
- दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है<sup>१</sup>
- क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते ॥
- हे यद्वाबा तेरी दया तो बड़ी है सो अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला ॥
- मेरा पीछा करनेहारे और मेरे सतानेहारे बहुत हैं मैं तेरा चित्तोनियों से नहीं हटा ॥
- मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ
- क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते ॥
- देख कि मैं तेरे उपदेशों में कैसी प्रीति रखता हूँ हे यद्वाबा अपनी कर्णा के अनुसार मुझ को जिला ॥
- तेरा सारा वचन<sup>२</sup> सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा का है ॥

(१) मूल में उद्धार दुष्टों से दूर है । (२) मूल में तेरे वचन का जोड़ ।



- १६१ हाकिम अकारण मेरे पीछे पड़े तो हूँ  
पर मेरा हृदय तेरे वचनों से भय करता है ॥
- १६२ जैसा कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है  
वैसा ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ ॥
- १६३ झूठ से तो मैं बैर और घिन रखता हूँ  
पर तेरी व्यवस्था में प्रीति रखता हूँ ॥
- १६४ तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं दिन दिन  
सात बेर तेरी स्तुति करता हूँ ॥
- १६५ तेरी व्यवस्था में प्रीति रखनेहारों को बड़ी शान्ति  
होती है  
और उन को कुछ ठोकर नहीं लगती ॥
- १६६ हे यहाँवा मैं तुझ से उद्धार पाने की आशा  
रखता  
और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ ॥
- १६७ मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता  
और उन में बहुत प्रीति रखता आया हूँ ॥
- १६८ मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता  
आया हूँ  
क्योंकि मेरी सारी चालचलन तेरे सन्मुख  
प्रगट है ॥
- १६९ हे यहाँवा मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे  
तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे ॥
- १७० मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे  
तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ॥
- १७१ मेरे मुँह से स्तुति निकला करे  
क्योंकि तू मुझे अपनी विधियाँ सिखाता  
है ॥
- १७२ मैं तेरे वचन का गीत गाऊँ  
क्योंकि तेरी सारी आज्ञाएँ धर्ममय हैं ॥
- १७३ तेरा हाथ मेरी सहायता करने का तैयार रहे  
क्योंकि मैं ने तेरे उपदेशों का अपनाया है ॥
- १७४ हे यहाँवा मैं तुझ से उद्धार पाने की आभिलाषा  
करता हूँ  
मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ ॥
- १७५ मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूँगा  
तेरे नियमों से मेरी सहायता हो ॥
- १७६ मैं खोई हुई भेड़ की नाई भटका हूँ तू अपने  
दास का हूँ  
क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का भूल नहीं  
गया ॥

(१) मूल में मेरे हाँठ स्तुति बहा ।

यात्रा का गीत ।

१२७. संकट के समय मैं ने यहाँवा का  
पुकारा

- और उस ने मेरी सुन ली ॥  
हे यहाँवा झूठ बोलनेहारें सुँह से  
और झुली जीभ से मेरी रक्षा कर ॥ २
- हे झुली जीभ  
तुझ को न्या मिले और तेरे साथ न्या अधिक  
किया जाए ॥ ३
- बीर के नोकीले तीर  
और भाऊ के अंगार ॥ ४
- हाय हाय क्योंकि मुझे मेशोक में परदेशी होकर  
रहना  
और केदार क तंबुआ के बीच बसना पड़ा  
है ॥ ५
- बहुत काल से मुझे को  
मेल के बैरियों के बीच बसना पड़ा है ॥ ६
- मैं तो मल चाहता हूँ  
पर मेरे बोलते ही वे लड़ने चाहते हैं ॥ ७

यात्रा का गीत ।

१२९. मैं अपनी आखें पवता काँ और  
लगाऊँगा<sup>१</sup>

- मुझे सहायता कहां से मिलेगी ॥  
मुझे सहायता यहाँवा काँ आर से मिलती है  
जा आकाश और पृथिवी का कर्ता है ॥ २
- वह तेरे पाव को टलने न देवे  
तेरा रक्षक कभी न ऊँचे ॥ ३
- सुन इक्षाएल का रक्षक  
न ऊँचेगा न सो जाएगा ॥ ४
- यहाँवा तेरा रक्षक है  
यहाँवा तेरी दहिनी और तेरी आड़ है ॥ ५
- न तो दिन का रूप से  
और न रात का चान्दना से तेरी कुछ हानि  
होगी ॥ ६
- यहाँवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा  
वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा ॥ ७
- यहाँवा तेरे आने जाने में  
तेरी रक्षा अब से ले सदा लाँ करता रहेगा ॥ ८

(१) मूल में उठाऊँगा ।

यात्रा का गीत । दाऊद का ।

**१२२. जब** लोगों ने मुझ से कहा कि हम  
यहोवा के भवन को चले

तब मैं आनन्दित हुआ ॥

२ हे यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर  
हम खड़े हो गये हैं ॥

३ हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान बना है  
जिस के घर एक दूसरे से मिले हुए हैं ॥

४ वहाँ याहू के गोत्र गोत्र के लोग  
यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं  
यह इस्राएल के लिये चितौनी है ॥

५ वहाँ ता न्याय के सिंहासन  
दाऊद के घराने के लिये धरं हुए हैं ॥

६ यरूशलेम की शांति का घर मांगो  
तेरे प्रेमी कुशल से रहें ॥

७ तेरी शहरपनाह के भीतर शांति  
और तेर महलों में कुशल होवे ॥

८ अरन भाइयों और संगियों के निमित्त  
मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे ॥

९ अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त  
मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा ॥

यात्रा का गीत ।

**१२३. हे** स्वर्ग में बराजमान  
मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ ॥

२ देख जेम दासा का आंखें स्वामियों के हाथ का ओर  
और जेम दासियों का आंखें स्वामी के हाथ का ओर  
लगी रहती हैं,

वैसे ही हमारा आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा का  
और लगी तब लौं रहेंगी

जब लौं वह हम पर अनुग्रह न करे ॥

३ हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर  
क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गये हैं ॥

४ हमारा जीव सुखियों के ठट्टों से  
और अहंकारियों के अपमान से  
बहुत ही भर गया है ॥

यात्रा का गीत । दाऊद का ।

**१२४. इस्राएल** यह कहे  
कि यदि हमारी ओर यहोवा  
न होता

(१) मूल में उठाता ।

यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता २

जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की  
तो ने हम को तब ही जीते निगल जाते ३  
जब उन का कोप हम पर भड़का था ॥

हम तब ही जल में डूब जाते ४  
और धारा में बह जाते २ ॥

उमड़ते जल में हम तब ही बह जाते ५  
धन्य है यहोवा ६

कि उस ने हम को उन के दांतों से काटे जाने  
न दिया ॥

हमारा जीव पत्थी की नाई चिड़ीमार के जाल ७  
से छूट गया

जाल फट गया हम बच निकले ॥

यहोवा जो आकाश और पृथिवी का कर्ता है ८  
हमारी सहायता उसी के नाम से होती है ॥

यात्रा का गीत ।

**१२५. जो** यहोवा पर भरोसा रखते हैं  
सो सिन्धुन पर्वत के समान हैं  
जो टलता नहीं सदा बना रहता है ॥

जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं २  
उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर  
अब से लो सधदा लौं रहेगा ॥

क्योंकि दुष्टों का राजदण्ड धर्मियों के भाग पर ३  
बना न रहेगा

ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम  
की ओर बढ़ाएँ ॥

हे यहोवा भलों का ४  
और सीधे मनवाला का भला कर ॥

पर जो मुड़कर टेढ़े पथों में चलते हैं ५  
उन को यहोवा अनर्थकारियों के संग चला देगा  
इस्राएल को शांति मिले ॥

यात्रा का गीत ।

**१२६. जब** यहोवा सिन्धुन के लौटनेहारों  
को लौटा ले आया

तब हम स्वप्न देखनेहारों से हो गये ॥

तब हम आनन्द से हंसने २  
और जयजयकार करने लगें, ४

(२) मूल में नदी हमारे प्राण्य के ऊपर से जाती ।

(३) मूल में अभिमानो ।

(४) मूल में हमारा मुंह इसी से और हमारी जीभ ऊंचे स्वर के  
गीत से भर गई ।

तब जाति जाति के बीच कहा जाता था  
 कि यहोवा ने इन के साथ बड़े बड़े काम किये हैं ॥  
 ३ यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किये ता हैं  
 और इस से हम आनन्दित हुए ॥  
 ४ व यहोवा दक्खिन देश के नालों की नाई  
 हमारे बंधुओं के लौटा ले आ ॥  
 ५ जो आंसू बहाते हुए बाते हैं  
 सो जयजयकार करते हुए लवने पाएंगे ॥  
 ६ चाहे अनेहारा बीज लिये रोता हुआ चला जाए  
 पर वह फिर पालियां लिये जयजयकार करता हुआ  
 निश्चय लौट आएगा ॥

यात्रा का गीत । सुलैमान का ।

१२७. यदि पर को यहोवा न बनाए  
 तो उस के बनानेहारों का  
 परिश्रम व्यर्थ होगा

यदि नगर की रक्षा यहांवा न कर  
 तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा ॥  
 २ तुम जो सबेरे उठते और अनेर करके विभ्राम करते  
 और दुःखभरी रोटी खाते हो तो तुम्हारे लिये यह  
 सब व्यर्थ ही है  
 क्योंकि वह अपने प्रियों को रोटी नींद दान करता है ॥  
 ३ देखो लड़के यहोवा के दिये हुए भाग हैं  
 गर्भ का फल उस की ओर से बदला है ॥  
 ४ जैसे वीर के हाथ में के तीर  
 वैसे ही जवान के लड़के हात हैं ॥  
 ५ क्या ही धन्य है वह पुरुष जिस ने अपने तर्क  
 को उन से भर लिया हो  
 वे फाटक के पास शत्रुओं से बातें करत सकीच  
 न करेंगे ॥

यात्रा का गीत ।

१२८. क्या ही धन्य है हर एक जो

यहोवा का भय मानता  
 और उस के मार्गों पर चलता है ॥

२ तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा  
 तू क्या ही धन्य होगा और तेरा क्या ही भला  
 होगा ॥  
 ३ तेरे घर के भीतर तेरी छाँ फलवन्त दाखलता  
 सी होगी  
 तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के  
 पाँचे से होंगे ॥

(१) मूल में हमारी बंधुआ है ।

सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो  
 ४ सो ऐसी ही आशिष पाएगा ॥  
 यहोवा तुम्हें सिध्दों से आशिष देवे  
 ५ और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता  
 रहे ॥  
 परन तू अपने नाती पोतों को देखने पावे  
 ६ इस्राएल को शान्ति मिले ॥

यात्रा का गीत ।

१२९. इस्राएल यह कहे  
 कि मेरे बचपन से लोग मुझे

बार बार क्रेश देते आये हैं ॥

मेरे बचपन से वे मुझ को बार बार क्रेश देते तो  
 २ आये हैं

पर मुझ पर प्रबल नहीं हुए ॥

हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया  
 ३ और लम्बी लम्बी रेखाएँ कीं ॥

यहोवा धर्मी है

उस ने दुष्टों के फंदों को फाट डाला है ॥

जितने सिध्दों से बेर रखते हैं

उन सभी की आशा टूटे और उन को पीछे हटना  
 पड़े ॥

वे छत पर की घास के समान हों

जो बढ़ते न बढ़ते सूख जाती है

जिस से कोई लवैया अपनी मुट्ठी नहीं भरता

न पालियों का कोई बांधनेहारा अपनी अकवार भर  
 लेता है ॥

और न आने जानेहारे कहते हैं

कि यहोवा का आशिष तुम पर होवे

हम तुम को यहोवा के नाम से आशीर्वाद  
 देते हैं ॥

यात्रा का गीत ।

१३०. हे यहोवा मैं ने गाँहरे स्थानों में से  
 तुम्हें को पुकारा है ॥

हे प्रभु मेरी सुन

तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे  
 रहें ॥

हे याह यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले

तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा ॥

पर तू क्षमा करनेहारा है २

(२) मूल में तेरे पास क्षमा है ।

- ५ जिस से तेरा नय माना जाए ॥  
 मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ मैं जी से उस की  
 बाट जोहता हूँ  
 और मेरी आशा उस के बचन पर है ॥  
 ६ पहचए जितना मेर को चाहते हैं  
 पहचए जितना मेर को चाहते हैं  
 उस से भी अधिक मैं यहोवा को जी से चाहता हूँ ॥  
 ७ इस्राएल यहोवा की आशा लगाये रहे  
 क्योंकि यहोवा करुणा करनेहारा  
 और पूरा छुटकारा देनेहारा है<sup>१</sup> ॥  
 ८ इस्राएल को सारे अधर्म के कामों से  
 बही छुटकारा देगा ॥

यात्रा का गीत । दाऊद का ।

१३१. हे यहोवा न तो मेरा मन गर्वी है  
 और न मेरी दृष्टि घमण्ड भरी  
 और जो बातें बड़ी और मेरे लिये अधिक कठिन हैं  
 उन से मैं काम नहीं रखता ॥  
 २ निश्चय मैं ने अपने मन को<sup>२</sup> शान्त और चुप कर  
 दिया है  
 जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मा की गोद  
 में<sup>३</sup> रहता है  
 वैसे ही दूध छुड़ाये हुए लड़के के समान मेरा मन  
 भी रहता है<sup>४</sup> ॥  
 ३ इस्राएल अब से ले सश लों  
 यहोवा की आशा लगाये रहे ॥

यात्रा का गीत ।

१३२. हे यहोवा दाऊद के लिये  
 उस की सारी दुर्दशा को स्मरण  
 कर ॥  
 २ उस ने यहोवा से किरिया खाई  
 और याकूब के सर्वशक्तिमान की मज्जत मानी  
 ३ कि निश्चय मैं तब लों न अपने घर में<sup>५</sup> प्रवेश  
 करूंगा  
 न अपने पलंग पर चढ़ूंगा  
 ४ न अपनी आंखों में नींद  
 न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा  
 ५ जब लों मैं यहोवा के लिये एक स्थान

- अर्थात् याकूब के सर्वशक्तिमान के लिये निवास  
 न पाऊं ॥  
 देखो हम न एप्राता में इस की चर्चा सुनी ६  
 हम ने इस को बन के खेतों में पाया है ॥  
 आओ हम उस के निवास में प्रवेश करें ७  
 हम उस के चरणों की चौकी के आगे दण्डवत्  
 करें ॥  
 हे यहोवा उठकर अपने विश्रामस्थान में ८  
 अपने सामर्थ्य के सन्दूक समेत आ ॥  
 तेरे याजक धर्म के बल पहिने रहें ९  
 और तेरे भक्त लोग जयजयकार करें ॥  
 अपने दास दाऊद के लिये १०  
 अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को सुनी अनसुनी  
 न कर<sup>६</sup> ॥  
 यहोवा ने दाऊद से सच्ची किरिया खाई ११  
 और वह उससे न मुकरेगा  
 कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को  
 बैठाऊंगा ॥  
 यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा को पालें १२  
 और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चलें  
 तो उन के वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग  
 बैठते चले जाएंगे ॥  
 क्योंकि यहोवा ने सिध्दों को अपनाया १३  
 और अपने निवास के लिये चाहा है ॥  
 यह ता युग युग के लिये मेरा विश्रामस्थान है १४  
 यही मैं रहूंगा क्योंकि मैं ने इस को चाहा है ॥  
 मैं इस में की भोजनवस्तुओं पर आत आशिष १५  
 दूंगा  
 और इस में के दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा ॥  
 और मैं इस में के याजकों को उद्धार का बल १६  
 पहिनाऊंगा  
 और इस में के भक्त लोग ऊंचे स्वर से जयजय-  
 कार करेंगे ॥  
 यहां मैं दाऊद के एक सींग उगाऊंगा १७  
 मैं ने अपने अभिषिक्त के लिये एक दीपक तैयार  
 कर रक्खा है ॥  
 मैं उस के शत्रुओं को तो लजा का बल १८  
 पहिनाऊंगा  
 पर उसी के सिर पर उस का मुकुट शोभायमान  
 रहेगा ॥

(१) मूल में यहोवा क. पास करुणा और उसी के पास बहुत छुटकारा है ।  
 (२) मूल में जीव को । (३) मूल में मा पर । (४) मूल में मेरे  
 पर रहता । (५) मूल में अपने घर के द्वारे में ।

(६) मूल में अभिषिक्त का मुख न फेर दे ।

यात्रा का गीत । दाऊद का ।

**१३३. देवो** यह क्या ही भलो और क्या ही मनोहर बात है

कि भाई लोग आपस में मिले रहें ।।

२ यह तो उस उत्तम तेल के समान है

जो हारून के सर पर डाला गया

और उस की दाढ़ी पर बहकर

उस के वस्त्र की छोर तक पहुँच गया

३ वा हेमान् की उस ओस के समान है

जो सिन्धु के पहाड़ों पर गरे

यहोवा ने तो वहीं

सदा के जीवन की आशिष उधरार्हे है ॥

यात्रा का गीत ।

**१३४. हे** यहोवा के सब सेवको सुनो  
तुम जो रात रात यहोवा के  
भवन में खड़े रहते हो

यहोवा को धन्य कहो ॥

२ अपने हाथ पवित्रस्थान में उठाकर

यहोवा को धन्य कहो ॥

३ यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है

सो सिन्धु के तटों में से तुम्हें आशिष देव ॥

**१३५. याह** की स्तुति करो  
यहोवा के नाम की स्तुति  
करो

हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो ॥

२ तुम जो यहोवा के भवन में

अर्थात् हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में  
खड़े रहते हो

३ याह का स्तुति करो<sup>१</sup> क्योंकि यहोवा  
मला है

उस के नाम का भजन गाओ क्योंकि यह  
मनभाऊ है ॥

४ याह ने तो याकूब को अपने लिये चुना  
अर्थात् इस्राएल को अपना निज धन होने के लिये  
चुन लिया है ॥

५ मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा  
सारे देवताओं से महान है ॥

६ जो कुछ यहोवा ने चाहा

सो उस ने आकाश और पृथिवी और समुद्र और  
सब गहरे स्थानों में किया है ॥

वह पृथिवी की छोर से कुहरे उठाता

७

और वर्षा के लिये बिजली बनाता

और पवन को अपने भण्डार में से निकालता है ॥

उस ने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु

८

सब के पहिलूओं को मार डाला ॥

हे मिस्र उस न तेरे मध्य में

९

फिरौन और उस के सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह

और चमत्कार किये ॥

उस ने बहुत सी जातियाँ नाश कीं

१०

और सामर्थी राजाओं को

अर्थात् एमोरियों के राजा सीहान को

११

और बाशान के राजा ओग का

और कनान के सारे राजाओं का घात किया

और उन के देवों को बाँटकर

१२

अपनी प्रजा इस्राएल के भाग होने के लिये दे

दिया ॥

हे यहोवा तेरा नाम सदा का है

१३

हे यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण होता है सो

पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा ॥

यहोवा तो अपना प्रजा का न्याय चुकाएगा

१४

और अपने दासों की दुःशा देखकर तरस

खाएगा ॥

अन्यजातियों की मूर्तों सेना चान्दी ही हैं

१५

वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं ॥

उन के मुँह तो रहता है पर वे बोल नहीं

१६

सकतीं

उन के आँख तो रहती हैं पर वे देख नहीं

सकतीं ॥

उन के कान तो रहते हैं पर वे सुन नहीं सकतीं

१७

न उन के कुछ भी सांस चलती है ॥

जैसी वे हैं वैसे ही उन के बनानेहारे

१८

और उन पर के सब भरोसा रखनेहारे भी

हो जाएंगे ॥

६ इस्राएल के घराने यहोवा को धन्य कह

१९

हे हारून के घराने यहोवा को धन्य कह ॥

हे लेवी के घराने यहोवा को धन्य कह

२०

हे यहोवा के डरबैयो यहोवा को धन्य कहो ॥

यहोवा जो यरूशलेम में बास करता है

२१

सो सिध्यों में धन्य कहा जावे  
याह की स्तुति करो<sup>१</sup> ॥

### १३६. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है

- उस की करुणा सदा की है ॥  
२ जो ईश्वरों का परमेश्वर है उस का धन्यवाद  
करो  
उस की करुणा सदा की है ॥  
३ जो प्रभुओं का प्रभु है उस का धन्यवाद करो  
उस की करुणा सदा की है ॥  
४ उस को छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्यकर्मों  
नहीं करता  
उस की करुणा सदा की है ॥  
५ उस ने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया  
उस की करुणा सदा की है ॥  
६ उस ने पृथिवी को जल के ऊपर फैलाया  
उस की करुणा सदा की है ॥  
७ उस ने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाईं  
उस की करुणा सदा की है,  
८ दिन पर प्रभुता करने के लिये सूर्य को  
उस की करुणा सदा की है,  
९ और रात पर प्रभुता करने के लिये चन्द्रमा और  
तारागण को  
उस की करुणा सदा की है,  
१० उस ने मिस्त्रियों के पहिलौठों को मारा  
उस की करुणा सदा की है,  
११ और उन के बीच से इस्राएलियों को  
उस की करुणा सदा की है,  
१२ बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई मुजा से निकाला  
उस की करुणा सदा की है ॥  
१३ उस ने लाल समुद्र को खरख कर दिया  
उस की करुणा सदा की है,  
१४ और इस्राएल को उस के बीच से पार कर दिया  
उस की करुणा सदा की है,  
१५ और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में भटक  
दिया  
उस की करुणा सदा की है ॥  
१६ वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला  
उस की करुणा सदा की है ॥

- उस ने बड़े बड़े राजा मारे १७  
उस की करुणा सदा की है ॥  
उस ने प्रतापी राजाओं को १८  
उस की करुणा सदा की है,  
एमोरियों के राजा सीहोन को १९  
उस की करुणा सदा की है,  
और बाशान के राजा ओग को घात किया २०  
उस की करुणा सदा की है,  
और उन के देश को भाग होने के लिये २१  
उस की करुणा सदा की है,  
अपने दास इस्राएलियों के भाग होने के लिये दे दिया २२  
उस की करुणा सदा की है ॥  
उस ने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली २३  
उस की करुणा सदा की है,  
और हम को द्रोहियों से छुड़ाया है २४  
उस की करुणा सदा की है ॥  
वह सारे प्राणियों को आहार देता है २५  
उस की करुणा सदा की है ॥  
स्वर्गवासी ईश्वर का धन्यवाद करो २६  
उस की करुणा सदा की है ॥

### १३७. बाबेल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गये

- और सिध्यों को स्मरण करके रो दिये ॥  
उस के बीच के मजनु वृद्धों पर २  
हम ने अपनी वीणाओं को टांग दिया ॥  
क्योंकि जो हम को बंधुए करके ले गये थे उन्होंने ३  
ने वहां हम से गीत<sup>२</sup> गवाना चाहा  
और हमारे बलानेहारों ने हम से आनन्द चाहकर कहा  
सिध्यों के गीतों में से हमारे लिये कोई गीत  
गाओ ॥  
हम यहोवा के गीत को ४  
पराये देश में क्योंकर गाएं ॥  
हे यरूशलेम यदि मैं तुम्हें भूल जाऊं ५  
तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए<sup>३</sup> ॥  
यदि मैं तुम्हें स्मरण न रक्खूं ६  
यदि मैं यरूशलेम को  
अपने सारे आनन्द से भेड़ न जानूं  
तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए ॥  
हे यहोवा यरूशलेम के दिन को एदोमियों के ७  
विषय स्मरण कर

(१) मूल में हल्ललूयाह ।

(२) मूल में गीत के बचन । (३) मूल में भूल जाए ।

कि वे क्योंकर कहते वे हाथो उस को नेव से  
ठा दो ॥

- ८ हे बाबेल<sup>१</sup> तू जो उजड़नेवाली है  
क्या ही धन्य वह हांगा जो तुझ से ऐसा ही  
बर्ताव करेगा  
जैसा तू ने हम से किया है ॥
- ९ क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को  
पकड़कर  
दांग पर पटक देगा ॥

दाऊद का ।

**१३८. मैं** सारे मन से तेरा धन्यवाद  
करूंगा

- देवताओं के साम्हने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा ॥  
२ मैं तेरे पवित्र मन्दिर की ओर दण्डवत् करूंगा  
और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे  
नाम का धन्यवाद करूंगा  
क्योंकि तू ने ऐसा बचन दिया है जो तेरे बड़े  
नाम से भी बढ़कर है ॥
- ३ जिस दिन मैं ने पुकारा उसी दिन तू ने मेरी सुन ली  
और मुझ में भल देकर हियाव बंधाया ॥
- ४ हे यहोवा पृथिवी के सारे राजा तेरा धन्यवाद करेंगे  
क्योंकि उन्होंने ने तेरे बचन सुने हैं ॥
- ५ और वे यहोवा की गति के विषय गाएंगे  
क्योंकि यहोवा की माहमा बड़ी है ॥
- ६ यद्यपि यहोवा महान है तौभी वह नम्र मनुष्य  
की ओर दृष्टि करता है  
पर अहंकारी को दूर ही से पहचानता है ॥
- ७ चाहे मैं सकट के बीच में रहूँ<sup>२</sup> तौभा तू मुझे  
जिलाएगा  
तू मेरे अपित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा  
और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा ॥
- ८ यहोवा मेरे लिये सब कुछ पूरा करेगा  
हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है  
तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न कर ॥
- प्रधान बजानेहारों के लिये - दाऊद का भजन ।

**१३९. हे** यहोवा तू ने मुझे जांचकर जान  
लिया है ॥

- २ तू मेरा उठना बैठना जानता  
और मेरे विचारों को दूर से भी समझ लेता है ॥

(१) मूल में हे बाबेल को बैदी । (२) मूल में चलू ।

मेरे चलने और लोटने की तू भली भाँति छानबीन ३  
करता

- और मेरी सारी चालचलन का भेद जानता है ॥  
और हे यहोवा मेरे मुह में ऐसी कोई बात नहीं ४  
जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो ॥
- तू ने मुझे आगे पीछे घेर रक्खा ५  
और अपना हाथ मुझ पर रक्ले रहता है ॥
- यह ज्ञान मेरे लिये बहुत कठिन है ६  
यह गभीर<sup>३</sup> और मेरी समझ से बाहर है ॥
- मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊ  
या तेरे साम्हने से किधर भागूं ॥ ७
- यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहां है ८  
और यदि मैं अपना बिलौना अधोलोक में बिछाऊँ  
तो वहां भी तू है ॥
- यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर<sup>४</sup> समुद्र के ९  
पार बसूँ<sup>५</sup>
- तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा १०  
और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा ॥
- और यदि मैं कहुँ अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा ११  
और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा  
हो जाएगा
- तौभी अंधकार तुझ से न छिपाएगा १२  
रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी  
अधियारा और उजियाला दोनों एक समान होंगे ॥
- मेरे मन का स्वामी तो तू है १३  
तू ने मुझे माता के गर्भ में रचा ॥
- मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिये कि मैं भयानक १४  
और अमृत रीति से रचा गया ॥
- तेरे काम तो आश्चर्य के हैं  
और मैं इसे भली भाँति जानता हूँ ॥
- जब मैं गुप्त में बनाया जाता १५  
और पृथिवी के नीचे स्थानों में रचा जाता था  
तब मेरी हड्डियां तुझ से छिपी न थीं ॥
- तू मुझे गर्भ में देखता था १६  
और मेरे सब अङ्ग जो दिन दिन बनते जाते थे  
सो रचे जाने से पहिले  
तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे ॥
- और मेरे लिये तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही १७  
प्रिय हैं  
उन की संख्या का जोड़ क्या ही बड़ा है ॥

(३) मूल में ऊँचे पर । (४) मूल में के पंख उठाकर ।

(५) मूल में पिछले भाग में बसूँ ।

- १८ यदि मैं उन को गिनता तो वे बासू के किनको से  
भी अधिक उधरते  
जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ ॥
- १९ हे ईश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा  
हे हत्यारो मुझ से दूर हो जाओ ॥
- २० क्योंकि वे तेरी चचा अतुराई से करते हैं  
तेरे द्रोही तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं ॥
- २१ हे यहोवा क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूँ  
और तेरे विरोधियों से रुठ न जाऊँ ॥
- २२ हाँ मैं उन से पूर्ण बैर रखता हूँ  
मैं उन को अपने शत्रु करके मानता हूँ ॥
- २३ हे ईश्वर मुझे जांचकर जान ले  
मुझे परखकर मेरी चिन्ताओं को जान ले ॥
- २४ और देख कि मुझ में कोई संताप करनेहारी  
चाल है कि नहीं  
और सदा के मार्ग में मेरी अगुवाई कर ॥

प्रधान बजानेहारों के लिये । दाऊद का । भजन ।

**१४०. हे** यहोवा मुझ को बुरे मनुष्य से  
बचा ले

उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर ॥

- २ क्योंकि उन्होंने मेरे मन में बुरी कल्पनाएँ की हैं  
वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं ॥
- ३ उन का बोलना साँप का काटना सा है ?  
उन के मुँह में नाग का सा लक्ष रहता है । सेला ॥
- ४ हे यहोवा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा  
उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर  
क्योंकि उन्होंने मेरे परों के खसकाने की युक्ति  
की है ॥
- ५ घमाशहियों ने मेरे लिये फंदा और पासे लगाये  
और पथ के किनारे जाल बिछाया  
उन्होंने मेरे लिये फंसावला लगाइ है । सेला ॥
- ६ हे यहोवा मैं ने तुझ से कहा है कि तू मेरा  
ईश्वर है  
हे यहोवा मेरे गिड़गिड़ाने की आर कान लगा ॥
- ७ हे यहोवा प्रभु हे मेरे सामर्थी उद्धारकर्ता ?  
तू ने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है ॥
- ८ हे यहोवा दुष्ट की इच्छा को पूरी न कर  
उस की बुरी युक्ति को सफल न कर नहीं तो वह  
घमशह करेगा । सेला ॥

(१) मूल में उन्होंने ने साँप की नाईं अपनी जीभ तेज की है ।

(२) मूल में हाँठों के नीचे । (३) मूल में हे मेरे उद्धार के बल ।

- मेरे बेरनेहारों के सिर पर  
उन्हीं का बिचारा हुआ उत्पात<sup>४</sup> पड़े ॥
- उन पर अंगारे डाले जाएँ  
वे आग में गिरा दिये जाएँ  
और ऐम गड़हों में गिर कि वे फिर उठ न सकें ॥
- बकबादी पृथिवी पर स्थिर नहीं होने का  
उपद्रवी पुरुष को बुराई गिराने के लिये अहेर  
करेगी ॥
- हे यहोवा मुझ निश्चय है कि तू दीन जन का  
और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा ॥
- निःसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने  
पाएँगे  
सीधे लोग तेरे सम्मुख बास करेंगे ॥  
दाऊद का । भजन ।

**१४१. हे** यहोवा मैं ने तुझे पुकारा है  
मेरे लिये फुर्ती कर

जब मैं तुझ को पुकारूँ तब मेरी ओर कान  
लगा ॥

मेरी प्रार्थना तेरे साम्हने सुगन्ध धूप  
और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अन्नबलि  
ठहरे ॥

हे यहोवा मेरे सुख पर पहरा बैठा  
मेरे हाँठों के द्वार की रखवाली कर ॥

मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने  
न दे

मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग  
दुष्ट कामों में न लगूँ  
और मैं उन के स्वादिष्ट भोजनवस्तुओं में से कुछ  
न खाऊँ ॥

धर्मी मुझ को मार्ग तो यह कृपा मानी  
जाएगी

और वह मुझे ताड़ना दे ता यह मेरे सिर पर का  
तेल ठहरेगा

मैं अपने सिर के लिये उसे नाह न करूँ  
लागों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में  
लवलीन रहूँगा ॥

उन के न्यायी दांग के पास गिराये गये  
और उन्होंने ने मेरे वचन सुन लिये क्योंकि वे मधुर  
हैं ॥

जैसे भूमि में हल चलने और ठेले फूटने के समय ७

(४) मूल में उन्हीं के हाँठों का उत्पात ।



हमारी हड्डियाँ अधोलोक के मुंह पर झितराई हुई हैं ॥

- ८ पर हे यहोवा प्रभु मेरी आँखें तेरी ही ओर लगी हैं मैं तेरा शरणागत हूँ तू मेरा प्राण जाने न दे ।  
 ९ मेरे लिये लगाये हुए फंदे से और अनर्थकारियों की फंसरियों से मेरी रक्षा कर ॥  
 १० दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फँसे और उस अवसर में मैं बच निकलूँ ॥

दाऊद का मस्कील । जब वह गुफा में था । प्रार्थना ।

**१४२. मैं** यहोवा की दोहाई देता

- मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ ॥  
 २ मैं अपने शोक की बातें उस से खोलकर कहता<sup>१</sup>  
 मैं अपना संकट उस के आगे प्रगट करता हूँ ॥  
 ३ जब मेरा आत्मा टपा हुआ था तब तू मेरी दशा<sup>२</sup> को जानता था जिस रास्ते से मैं जानेवाला था उसी में उन्हा ने मेरे लिये फंदा लगाया ॥  
 ४ मेरी दहिनी ओर देख कोई मुझ को नहीं पहिचानता मेरे लिये शरणा कहीं नहीं रही मुझ को कोई नहीं पूछता ॥  
 ५ हे यहोवा मैं ने तेरी दोहाई दी है मैं ने कहा तू मेरा शरणास्थान है मेरे जीते जी तू मेरा भाग है ॥  
 ६ मेरी चिंत्तादृष्ट को ध्यान देकर सुन क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है जो मेरे पीछे पड़े हैं उन से मुझे बचा ले क्योंकि वे मुझ से अधिक सामर्थी हैं ॥  
 ७ मुझ को बन्दोख से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँ धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे इस लिये कि तू मेरा उपकार करेगा ॥

दाऊद का मजन ।

**१४३. हे** यहोवा मेरी प्रार्थना सुन मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा

- तू जो सच्चा और धर्मी है सो<sup>३</sup> मेरी सुन ले ॥  
 १ और अपने दास से मुकद्दमा न उठा

(१) मूल में उस के साम्हने उखड़ेगा ।

(२) मूल में मेरा पथ ।

(३) मूल में अपनी सच्चाई और धार्मिकता से ।

क्योंकि कोई प्राणी तेरे लेखे निर्दोष नहीं उठर सकता ॥

शु तो मेरे प्राण का गाइक हुआ ३  
 उस ने मुझे चूर कर के मिट्टी में मिलाया और मुझे ढेर दिन के मरे हुआ के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है ॥

मेरा आत्मा टपा हुआ है ४  
 मेरा मन विकल है ॥

मुझे प्राचीनकाल के दिन स्मरण आते हैं ५  
 में तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता

और तेरे काम को सोचता हूँ ॥  
 मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाये हूँ ६

सूखी भूमि की नाई<sup>७</sup> मैं तेरा प्यासा हूँ । सेला ॥  
 हे यहोवा फुर्ती कर के मेरी सुन ले ७

क्योंकि मेरा प्राण निकलने पर है<sup>४</sup>  
 मुझ से अपना मुंह न फेर ले

ऐसा न हो कि मैं कबर में पड़े हुआ के समान हो जाऊँ ॥

अपनी कष्टा की बात मुझे तड़के सुना ८  
 क्योंकि मैं ने तुझी पर भरोसा रक्खा है ।

जिस मार्ग से मुझे चलना है सो मुझ को बता दे ९  
 क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता<sup>५</sup> हूँ ॥

हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले ९  
 मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ ॥

मुझ को यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा<sup>१०</sup> क्योंकर पूरी १०  
 करूँ क्यंकि मेरा परमेश्वर तू ही है ।

तेरा आत्मा तो भला है सो मुझ को धर्मी के मार्ग में ले चल ॥

हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला ११  
 तू जो धर्मी है सो<sup>६</sup> मुझ को संकट से छुड़ा ॥

और कष्टा करके मेरे शत्रुओं को सत्यानाश कर १२  
 और मेरे सब सतानेहारों का नाश कर

क्योंकि मैं तेरा दास हूँ ॥

दाऊद का ।

**१४४. धन्य है** यहोवा जो मेरी चटान है वह मेरे हाथों को लड़ने

और<sup>७</sup> युद्ध करने के लिये तैयार करता है ॥  
 वह मेरे लिये कष्टानिधान और गढ़ २  
 उंचा स्थान और छुड़ानेहार

(४) मूल में मेरा आत्मा मिट गया । (५) मूल में उठाता ।

(६) मूल में अपनी धार्मिकता से । (७) मूल में शत्रुलियों से ।

- ३ ढाल और शरयस्थान है  
मेरी प्रजा को मेरे वश में वही रखता है ॥  
हे यहोवा मनुष्य क्या है कि तू उस की सुधि  
लेता है  
आदमी क्या है कि तू उस का कुछ लेखा  
करता है ॥
- ४ मनुष्य तो सांस के समान है  
उस के दिन मिटती हुई छाया के समान है ॥
- ५ हे यहोवा अपने स्वर्ग को नीचे करके उतर आ  
पहाड़ों को छू तब उन से धुंआं उठेगा ॥
- ६ बिजली कड़काकर उन को तित्तर बित्तर कर  
अपने तीर चलाकर उन को धबरा दे ॥
- ७ अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर  
मुझे उबार और महासागर से  
अर्थात् परदेशियों के वश से छुड़ा ॥
- ८ उन के मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं  
और उन के दहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं १ ॥
- ९ हे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा  
मैं दस तारवाली सारंगी बजाकर तेरा भजन  
गाऊंगा ॥
- १० तू राजाओं का उद्धार करता  
और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से  
बचाता है ॥
- ११ तू मुझ को उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा  
जिन के मुंह से व्यर्थ बातें निकलतीं  
और उन के दहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं ॥
- १२ हमारे बेटे जो जवानी के समय पौधों की नाई  
बढ़े हुए हों  
हमारी बेटियां जो उन कोनेवाले पत्थरों के समान  
हों जो मन्दिर के पत्थरों की नाई बनाये जाएं
- १३ हमारे खत्ते जो भरे रहें और उन में भांति भांति  
का अन्न धरा जाए  
हमारी मेड़ बकरियां जो हमारे मैदानों में हजारों  
हजार बच्चे जन्में
- १४ हमारे बैल जो खूब लदे हुए हों  
हम पर जो न टूट पड़ना और न हमारा निकल  
जाना  
और न हमारे चोंकों में कुछ रोना पीटना हो
- १५ इस दशा में जो राज्य हो सो क्या ही धन्य होगा  
जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है सो क्या ही  
धन्य है ॥

(१) मूल में उन का दहिना हाथ भूठ का दहिना हाथ है ।

- स्तुति । दाऊद का  
१४५. हे मेरे परमेश्वर हे राजा मैं तुझे  
सराहूंगा  
और तेरा नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता  
रहूंगा ॥
- दिन दिन मैं तुझ को धन्य कहा करूंगा २  
और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता  
रहूंगा ॥
- यहोवा महान् और स्तुति के अति योग्य है ३  
और उस की बड़ाई अगम है ॥  
तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों  
का वर्णन  
पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा ॥  
मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर ५  
और तेरे भांति भांति के आश्चर्यकर्मों पर ध्यान  
करूंगा ॥  
और लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा ६  
करगे  
और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा ॥  
लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उस की ७  
चर्चा करेंगे  
और तेरे धर्म का जयजयकार करेंगे ॥  
यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु ८  
बिलम्ब से कोप करनेहारा और अति करुणामय  
है ॥  
यहोवा सभों के लिये भला है ९  
और उस की दया उस की सारी सृष्टि पर है ॥  
हे यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी १०  
और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे ॥  
वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे ११  
और तेरे पराक्रम के विषय बातें करेंगे  
इसलिये कि वे आर्दामयों को तेरे पराक्रम के काम १२  
और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रगट करें ॥  
तेरा राज्य युग युग का १३  
और तेरी प्रभुता सारी पीढ़ियों की है ॥  
यहोवा सब गिरते हुआं को संभालता १४  
और सब झुके हुआं को सीधा खड़ा करता है ॥  
सभों की आँखें तेरी ओर लगी रहती हैं १५  
और तू उन को आहार समय पर देता है ॥  
तू अपनी मुट्ठी खोलकर १६  
सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है ॥  
यहोवा अपनी सारी गति में धर्मी १७

- और अपने सब कामों में करुणामय है ॥  
 १८ जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात् जितने उस  
 को सच्चाई से पुकारते हैं  
 उन सबों के वह निकट होता है ॥  
 १९ वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करेगा  
 और उन की दोहाई सुनकर उन का उद्धार करेगा ॥  
 २० यहोवा अपने सब प्रेमियों को तो रक्षा  
 पर सब दुष्टों को सत्यानाश करता है ॥  
 २१ मैं यहावा की स्तुति करूंगा  
 और सारे प्राणी उस के पवित्र नाम को सदा सर्वदा  
 धन्य कहते रहें ॥

### १४६. याह की स्तुति करो ?

हे मेरे मन यहोवा की

स्तुति कर ॥

- २ मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा  
 जब लो मैं बना रहूंगा तब लो मैं अपने परमेश्वर  
 का भजन गाता रहूंगा ॥  
 ३ तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना  
 न किसी आदमी पर क्योंकि उस में उद्धार करने  
 की शक्ति नहीं ॥  
 ४ उस का प्राण निकलेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा  
 उसी दिन उस की सब कल्पनाएं नाश हो  
 जाएगी ॥  
 ५ क्या ही धन्य वह है जिस का सहायक याकूब का  
 ईश्वर हो  
 और जिस का आश्रय अपने परमेश्वर यहोवा  
 पर हो ॥  
 ६ वह आकाश और पृथिवी और समुद्र  
 और उन में जो कुछ है सब का कर्ता है  
 और वह अपना वचन सदा लो पूरा करता  
 रहेगा ॥  
 ७ वह पिसे हुआ का न्याय चुकाता  
 और भूखों का रोटी देता है  
 यहोवा बन्धुओं का लुड़ाता है ॥  
 ८ यहोवा अर्थों को आलें देता है  
 यहोवा भुके हुआ को सीधा खड़ा करता है  
 यहोवा धार्मियों से प्रेम रखता है ॥  
 ९ यहोवा परदेशियों की रक्षा करता  
 और बपभूए और विधवा को तो सम्भालता है  
 पर दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है ॥

(१) मूल में हल्ललूयाह ।

हे सिय्योन यहोवा सदा लो  
 तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा  
 याह की स्तुति करो ? १०

### १४७. याह की स्तुति करो ?

क्योंकि अपने परमेश्वर का

भजन गाना अच्छा है

वह मनभावना है स्तुति करनी फबती है ॥

यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है २

वह निकाले हुए इस्त्राएलियों को इकट्ठा कर  
 रहा है ॥

वह खेदित मनवालों को चंगा करता ३

और उन के शोक पर पट्टी बांधता है ॥

वह तारों को गिनता ४

और उन में से एक एक का नाम रखता है ॥

हमारा प्रभु महान् और अति सामर्थी है । ५

उस की बुद्धि अपार है ॥

यहोवा नम्र लोगों को सम्भालता ६

और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है ॥

धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ ७

वांछा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन  
 गाओ ॥

वह आकाश को मंघों से छा देता ८

और पृथिवी के लिये मेंह की तैयारी करता

और पहाड़ों पर घास उगाता है ॥

वह पशुओं को और कैवे के बच्चे को जो ९  
 पुकारते हैं

आहार देता है ॥

न तो वह घोड़े के बल को चाहता १०

और न पुरुष के पैरों से प्रमत्त होता है ॥

यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रमत्त होता है ११

अर्थात् उन से जो उस की करुणा की आशा  
 लगाये रहते हैं ॥

हे यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर १२

हे सिय्योन अपने परमेश्वर की स्तुति कर ॥

क्योंकि उस ने तेरे फाटको के बगड़ों को हड़ किया १३

और तेरे लड़के बालों को ? आशिष दी है ॥

वह तेरे सवानों में शान्ति देता १४

और तुझ को उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता  
 है ॥

(२) मूल में तेरे भीतर तेरे लड़कों को ।

- १५ वह पृथिवी पर अपनी आशा का प्रचार करता है  
उस का वचन अति वेग से दौड़ता है ॥
- १६ वह ऊन के समान हिम देता  
और राख की नाईं पाला छितराता है ॥
- १७ वह बरफ के टुकड़े गिराता है  
उस की की हुई ठण्ड को कौन सह सकता है ॥
- १८ वह आशा देकर उन्हें गलाता है  
वह वायु बहाता है तब जल बहने लगता है ॥
- १९ वह थाकूब को अपना वचन  
इसाएल का अपनी विधियां और नियम  
बताता है ॥
- २० किसी और जाति से उस ने ऐसा बर्ताव  
नहीं किया  
और उस के नियमों का औरों ने नहीं जाना  
याह की स्तुति करो? ॥

### १४८. याह की स्तुति करो?

यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से  
करो

- उस की स्तुति ऊंचे स्थानों में करो ॥
- २ हे उस के सारे दूतों उस की स्तुति करो  
हे उस की सारी सेना उस की स्तुति कर ॥
- ३ हे सूर्य और चन्द्रमा उस की स्तुति करो  
हे सारे ज्योतिमय तारो उस की स्तुति करो ॥
- ४ हे सय से ऊंच आकाश  
और हे आकाश के ऊपरवाले जल तुम दोनों  
उस की स्तुति करो ॥
- ५ ये यहोवा के नाम की स्तुति करें  
क्योंकि उसी ने आशा दी और ये सिरजे  
गये ॥
- ६ और उस ने उन को सदा सर्वदा के लिये  
स्थिर किया है
- और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं ॥  
पृथिवी में से यहोवा की स्तुति करो  
हे मगरमच्छो और गहिरें सागर  
हे अग्नि और ओलो हे हिम और कुहरे  
हे उस का वचन माननेहारी प्रचण्ड बयार  
हे पहाड़ो और सब टीलो  
हे फलदाईं वृक्षो और सब देवदारो  
हे बनैले पशुओ और सब घरेले पशुओ  
हे रेंगनेहारे जन्तुओ और हे पक्षियो

(१) मूल में हल्लसूयाह ।

- हे पृथिवी के राजाओ और राज्य राज्य के ११  
सब लोगो
- हे हाकिमो और पृथिवी के सब न्यायियो  
हे जवानो और कुमारयो १२  
हे पुरनियो और बालको  
यहोवा के नाम की स्तुति करो? १३  
क्योंकि केवल उसी का नाम महान् है  
उस का ऐश्वर्य पृथिवी और आकाश के  
ऊपर है ॥  
और उस ने अपनी प्रजा के लिये एक सींग ऊंचा १४  
किया है  
यह उस के सारे भक्त के  
अर्थात् इस्राएलियों के? उस के समीप रहनेहारी  
प्रजा के स्तुति करने का विषय है ।  
याह की स्तुति करो? ॥

### १४९. याह की स्तुति करो?

यहोवा के लिये नया गीत

- भक्तों की सभा में उस की स्तुति गाओ ॥  
इसाएल अपने कर्त्ता के कारण आनंदित हो २  
सिध्यों के निवासी अपने राजा के कारण  
मगन हो ॥  
वे नाचते हुए उस के नाम की स्तुति करें ३  
और डफ और वीणा बजाते हुए उस का भजन  
गाएं ॥  
क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है ४  
वह नम्र लोगो का उद्धार करके उन्हें शोभायमान  
करेगा ।  
भक्त लोग महिमा के कारण हुलसे ५  
और अपने बिल्लियों पर भी पड़े पड़े जयजय-  
कार करें ॥  
उन के कंठ से ईश्वर की सराहना हो ६  
और उन के हाथ में दोधारी तलवार रहे  
कि वे अन्यजातियों से पलटा लें ७  
और राज्य राज्य के लोगो को ताड़ना दे  
और उन के राजाओ को सांकलों से ८  
और उन के प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की  
बेड़ियों से जकड़ रमखें

(२) मूल में करें ।

१ और उन को ठहराया हुआ<sup>१</sup> दण्ड दे  
उस के सारे भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी ।  
याह की स्तुति करो<sup>२</sup> ॥

१५०. याह की स्तुति करो<sup>२</sup>  
ईश्वर के पवित्रस्थान में उस  
की स्तुति करो  
उस के सामर्थ्य से भरे हुए आकारामण्डल में उसी  
की स्तुति करो ॥

२ उस के पराक्रम के कामों के कारण उस की  
स्तुति करो  
उस की अत्यन्त बढ़ाई के अनुसार उस की स्तुति  
करो ॥

(१) मूल में लिखा हुआ । (२) मूल में हल्लय्याह ।

नरसिंगा फुंकते हुए उस की स्तुति करो १  
सारंगी और वीणा बजाते हुए उस की स्तुति  
करो ॥  
डफ बजाते और नाचते हुए उस की ४  
स्तुति करो  
तारवाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उस  
की स्तुति करो ॥  
ऊँचे शब्दवाली भांभ बजाते हुए उस की ५  
स्तुति करो  
आनन्द के महाशब्दवाली भांभ बजाते हुए उस  
की स्तुति करो ॥  
जितने प्राणी हैं ६  
सब के सब याह की स्तुति करें ।  
याह की स्तुति करो<sup>२</sup> ॥

## नीतिवचन ।

१ दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलै-  
मान के नीतिवचन ॥  
२ इन के द्वारा पढ़नेहारा बुद्धि और शिक्षा  
प्राप्त करे  
और समझ की बात समझे  
३ और काम करने में प्रवीणता  
और धर्म न्याय और सीधायी की शिक्षा पाए  
४ और मोलों को चतुराई  
और जवान को ज्ञान और विवेक मिले  
५ और बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए  
और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए  
६ जिस से वे नीतिवचन और दृष्टान्त को  
और बुद्धिमानों के वचन और हथकूटों को  
समझें ॥  
७ यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है  
बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ  
जानते हैं ॥  
८ हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा को सुन  
और अपनी माता की सीख को न तज ॥

क्योंकि वे मानों तेरे सिर के लिये शोभायमान ९  
मुकुट  
और तेरे गले के लिए कण्ठे बनेंगी ॥  
हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाएँ १०  
तो उन की बात न मानना ॥  
यदि वे कहें कि हमारे संग चल ११  
हम खून करने के लिये घात लगाएँ  
हम निर्दोषों की ताक<sup>१</sup> में रहें  
हम अधोलोक की नाईं उन को जीतें १२  
और कबर में पड़ते हुआँ के समान उन्हें समूचे  
निगल जाएँ ॥  
हम को सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे १३  
हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे  
तू हमारा साझी हो जा १४  
हम सबों का एक ही बटुआ हो  
तो हे मेरे पुत्र उन के संग माग में न चलना १५  
वरन उन की डगर में पाँव भी न धरना ॥  
क्योंकि वे सुराई ही करने को दौड़ते १६

(१) मूल में अकारण इसके ।

- और खून करने को कुर्बान करते हैं ॥  
 १७ किसी पक्षी के देखते  
 लाल फैलाना व्यर्थ होता है ॥  
 १८ ये लोग तो अपने खून के लिये बात लगाते हैं  
 और अपने ही प्राण की घात की तक में रहते हैं  
 १९ सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है  
 उन का प्राण लालच ही के कारण नाश हो  
 जाता है ॥  
 २० बुद्धि सबक में ऊँचे स्वर से बोलती  
 और चौकी में प्रचार करती है ॥  
 २१ वह हाटों के सिरे पर पुकारती  
 और फाटकों के बीच  
 और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है कि  
 २२ हे मोले लोगो तुम कब लो मोलेपन में प्रीति  
 रखोगे  
 और हे ठट्टा करनेहारो तुम कब लो ठट्टा करना  
 चाहोगे  
 और हे मूर्खो तुम कब लो ज्ञान से बैर रखोगे ॥  
 २३ मेरा डांटना सुनकर फिरो  
 सुनो मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिये उलटेल दूंगी  
 मैं तुम को अपने वचन बताऊंगी ॥  
 २४ मैं ने तो पुकारा पर तुम ने नाह की  
 और मैं ने हाथ फैलाया पर किसी ने ध्यान न  
 दिया ॥  
 २५ बरन तुम ने मेरी सारी सम्मति को सुनी अनसुनी  
 किया  
 और मेरे डांटने को नहीं चाहा ॥  
 २६ इसलिये मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हँसूंगी  
 और जब तुम पर भय आ पड़ेगा  
 २७ बरन आंधी की नाहँ तुम पर भय आ पड़ेगा  
 और विपत्ति बरगडर के समान आ पड़ेगी  
 और तुम संकट और सकेती में फंसेगे तब मैं ठट्टा  
 करूंगी ॥  
 २८ उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी  
 वे मुझे यत्न से तो हूँदेंगे पर न पाएँगे ॥  
 २९ उन्हों ने ज्ञान से बैर किया  
 और यहोवा का भय मानना उन को न भाया ॥  
 ३० उन्हों ने मेरी सम्मति न चाही  
 बरन मेरी सारी डांट का तिरस्कार किया ॥  
 ३१ इसलिये वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे

और अपनी युक्तियों के फल से अघाएँगे ॥  
 क्योंकि मोले लोगों का हट जाना उन के बात किये ३२  
 जाने का कारण होगा  
 और निश्चिन्त रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे ॥  
 पर जो मेरी सुनेगा सो निहडर बसा रहेगा और ३३  
 बेखटक सुख से रहेगा ॥

२. हे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे  
 और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में  
 रख छोड़े

- और बुद्धि की बात ध्यान देके सुने २  
 और समझ की बात मन लगा के सोचे  
 और प्रवीणता और समझ का ३  
 अति यत्न करे ॥  
 यदि उस को चाँदी की नाहँ दूँदे ४  
 और गुप्त धन के समान उस की खोज में लगे  
 तो तू यहोवा के भय को समझ सकेगा ५  
 और परमेश्वर का शान तुम्हें प्राप्त होगा ॥  
 क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है ६  
 ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निक-  
 लती हैं ॥  
 वह सीधे लोगों के लिये खरी बुद्धि रख छोड़ता ७  
 जो खराई से चलते हैं उन के लिये बह ढाल  
 उहरता है ॥  
 वह न्याय के पथों की देख भाँल करता ८  
 और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है ॥  
 सो तू धर्म और न्याय ९  
 और सीधाई को निदान सब भली भली चाल  
 समझ सकेगा ॥  
 बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी १०  
 और ज्ञान तुझ को मनमाऊ लगेगा ॥  
 विवेक तुम्हें बचाएगा ११  
 और समझ से तेरी रक्षा होगी ॥  
 इस से तू खराई के मार्ग से १२  
 और उलट फेर की बातों के कहनेहारों से बचेगा ॥  
 जो सीधाई की बाट को छोड़कर १३  
 अंधेरे मार्ग में चलते हैं  
 और खराई करने से आनन्दित १४  
 और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों से मगन  
 होते हैं  
 उन की चाल चलन टेढ़ी १५  
 और चाल बिगड़ी होती है ॥

- १६ फिर तू पराई स्त्री से भी बचेगा  
जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है
- १७ और अपनी जवानी के परम प्रिय को छोड़  
देती  
और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल  
जाती है ॥
- १८ उस का घर मृत्यु का और दुलकता है  
और उस की डगरें मरे हुएों के बीच पहुंचाती हैं ॥
- १९ जो उस के पास जाते हैं उन में से कोई भी लौट  
नहीं आता  
और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं ॥
- २० तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल  
और धर्मियों की बाट को पकड़े रह ॥
- २१ क्योंकि सीधे ही लोग देश में बसे रहेंगे  
और खरे ही लोग उस में बने रहेंगे ॥
- २२ दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे  
और विश्वासघाती उस में से उखाड़े जाएंगे ॥
- ३. हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना**  
अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को  
रक्खे रहना ॥
- २ क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु<sup>१</sup> बढ़ेगी  
और तू अधिक कुशल से रहेगा ॥
- ३ कृपा और सच्चाई तुझ से अलग न होने पाएँ  
वरन उन को अपने गले का हार बनाना  
और अपनी हृदयरूपी पटिया पर लिखना
- ४ और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह  
पाएगा  
तू अति बुद्धिमान् होगा ॥
- ५ और अपनी समझ का सहारा न लेना  
वरन सारे मन से यहोवा पर भरोसा रखना ॥
- ६ उसी को स्मरण करके सब काम करना  
तब वह तेरे लिये सीधी बाट निकालेगा ॥
- ७ अपने लेखे बुद्धिमान् न होना  
यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना ॥
- ८ ऐसा करने से तेरा शरीर<sup>२</sup> भला चंगा  
और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेंगी ॥
- ९ अपनी संपात्त के द्वारा  
और अपनी भूमि की सारी पहिली उपज दे देकर  
यहोवा की प्रतिष्ठा करना,

(१) मूल में दिनों की संख्याएं और जीवन के वरस ।

(२) मूल में तेरी नाभि ।

- और तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे २०  
और तेरे रसकुण्डों से नया दाखमधु उमरबता  
रहेगा ॥
- हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न ११  
मोड़ना  
और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना ॥  
क्योंकि यहोवा जिस से प्रेम रखता उस को १२  
डांटता है  
जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक  
चाहता है ॥
- क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए १३  
और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे ॥  
क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चान्दी की प्राप्ति से १४  
बढ़ी  
और उस का लाभ चोखे सोने के लाभ से भी  
उत्तम है ॥
- वह मंगे से अधिक अनमोल है १५  
और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है  
उन में से कोई भी उस के तुल्य न ठहरेगी ॥
- उस के दहिने हाथ में दीर्घायु १६  
और उस के बाएँ हाथ में धन और महिमा हैं ॥
- उस के मार्ग मनमालु १७  
और उस की सारी डगरें कुशल की हैं ॥  
जो बुद्धि का ग्रहण कर लेते हैं उन के लिये वह १८  
जीवन का वृक्ष बनती है  
और जो उस को पकड़े रहते हैं सो धन्य हैं ॥
- यहोवा ने पृथिवी की नेब बुद्धि ही से १९  
डाली  
और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर बनाया ॥  
उसी के ज्ञान के द्वारा गहिरें सागर फूट निकले २०  
और आकाशमण्डल से ओस टपकती है ॥
- हे मेरे पुत्र ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाएँ २१  
खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर ॥
- तब इन से तुझे जीवन मिलेगा २२  
और ये तेरे गले का हार बनेंगे ॥
- और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा २३  
और तेरे पांव में ठेस न लगेगी ॥
- जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा २४  
जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी ॥
- अचानक आनेहारे भय से न डरना २५  
और जब दुष्टों की विपत्ति आ पड़े तब न  
घबराना ॥

- २६ क्योंकि यहोवा तुम्हें सहारा दिया करेगा  
और तेरे पांव को फन्दे में फंसने न देगा ॥
- २७ जिन का भला करना चाहिये यदि तुम्हें शक्ति रह  
तो भला करने से न रुकना ॥
- २८ यदि तेरे पास देने की कुछ हो  
तो अग्ने पड़ेसी से न कहना कि  
जा कल फिर आना कल मैं तुम्हें दूंगा ॥
- २९ जब तेरा पड़ेसी तेरे पास बेखटके रहता है  
तब उस के विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना ॥
- ३० जिस मनुष्य ने तुम्हें से बुरा व्यवहार न किया हो  
उस से अकारण मुकद्दमा न खड़ा करना ॥
- ३१ उपद्रवी पुरुष के विषय डाह न करना  
न उस की सी चाल चलना ॥
- ३२ क्योंकि यहोवा कुटिल से घिन करता है  
पर वह अपना भेद सीधे लोगों पर खालता है<sup>१</sup> ॥
- ३३ दुष्ट के घर पर यहोवा का स्नाप  
और धर्मियों के वास्तुस्थान पर उस की आशिष  
होती है ॥
- ३४ ठट्ठा करनेहारों से वह निश्चय ठट्ठा करता है  
और दीनों पर अनुग्रह करता है ॥
- ३५ बुद्धिमान् माहमा को अपने भाग में पाएंगे  
और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी ॥

४. हे मेरे पुत्रो पिता की शिक्षा सुनो  
और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ ॥

- २ क्योंकि मैं ने तुम को उत्तम शिक्षा दी है  
मेरी शिक्षा को न छोड़ो ॥
- ३ देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था  
और माता का एकला दुलारा था,  
और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता  
था कि  
तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे  
तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीता  
रहेगा ॥
- ५ बुद्धि को प्राप्त कर समझ को भी प्राप्त कर  
उन को भूल न जाना न मेरी बातों को छोड़ना ॥
- ६ बुद्धि को न छोड़ वह तेरी रक्षा करेगी  
उस से प्रीति रख वह तेरा पहरा देगी ॥
- ७ बुद्धि का आरंभ उस की प्राप्ति में यत्न  
करना है

- सो जो कुछ तू प्राप्त करे उसे तो प्राप्त करे  
पर समझ की प्राप्ति बटने न पाए ॥
- उस की बढ़ाई कर वह तुम्हें को बढ़ाएगी ८
- जब तू उस से लिपट जाए तब वह तेरी महिमा  
करेगी ॥
- वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी ९
- और तुम्हें सुन्दर मुकुट देगी ॥
- हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर १०
- तब तू बहुत बरस लां जीता रहेगा ॥
- मैं ने तुम्हें बुद्धि का मार्ग बताया ११
- और सीधे के पथ पर चलाया है ॥
- चलने में तुम्हें रोक टोक न होगी १२
- और चाहे तू दौड़े तौ भी ठोकर न खाएगा ॥
- शिक्षा को पकड़े रह उसे छोड़ न दे १३
- उस की रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है ॥
- दुष्टों की बात में पांव मत धर १४
- और न बुरे लोगों के मार्ग पर चल ॥
- उसे छोड़ दे उस के पास से भी न चल १५
- उस के निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा ॥
- क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तौ उन को नींद १६
- नहीं आती
- और जब लो वे किसी का ठोकर न खिलाएं तब लो  
उन्हें नींद नहीं पड़ती ॥
- वे तो दुष्टता से कमाई हुई राटी खाते १७
- और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं ॥
- पर धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के १८
- समान है
- जिस का प्रकाश दोपहर लां अधिक अधिक बढ़ता  
रहता है ॥
- दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है १९
- वे नहीं जानते कि हम किस से ठोकर खाते हैं ॥
- हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरके सुन २०
- और अपना कान मेरी बातों पर लगा ॥
- इन को अपनी आंखों की ओट न होने दे २१
- बरन अपने मन में धारण कर ॥
- क्योंकि जिन को वे प्राप्त हांती हैं वे उन के जीते २२
- रहने का
- और उन के सारे शरीर के चंगे रहने का कारण  
हांती हैं ॥
- सब से अधिक अपने मन की रक्षा कर २३
- क्योंकि जीवन के निकास उसी से होते हैं ॥
- टेढ़ी बात बोलने से परे रह २४

(१) मूल में उस का भेद सीधे लोगों के पास है ।



- २५ और उलट केर की बातें कहने से दूर रह ॥  
तेरी आँखें साँधने ही की ओर लगी रहें  
और तेरी पलकों आगे की ओर खुली रहें ॥
- २६ अपने पांव धरने के लिए डगर को समथर कर  
और तैरे सारे मार्ग ठीक किये जायें ॥
- २७ न तो दहिनी ओर मुड़ और न बाईं ओर  
अपने पांव को बुराई के मार्ग पर रखने से रुका  
रह ॥

५. हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर  
ध्यान दे

- मेरे समझाने की ओर कान लगा,  
बिस से तुझे विवेक बना रहे  
और तू ज्ञान के वचनों को पकड़े रहे ॥
- २ पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है  
और उस की बातें तेल से भी अधिक चिकनी  
होती हैं ॥
- ४ पर इस का परिणाम नागदौना सा कड़वा  
और दोषारी तलवार सा पैना होता है ॥
- ५ उस के पांव मृत्यु की ओर बढ़ते  
और उस के पग अधोलोक की ओर पड़ते हैं ॥
- ६ इस से वह जीवन की चौरस बाट को नहीं  
पा सकती  
वह चाल चलन में चंचल है पर आप नहीं  
जानती ॥
- ७ सो अब हे मेरे पुत्रो मेरी सुनो  
और मेरी बातों से मुँह न मोड़ो ॥
- ८ ऐसी स्त्री से दूर ही रह  
और न उस की डेवठी के पास जा ॥
- ९ ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ  
और अपना जीवन क्रूर जन के वश कर दे  
और बिराने तेरी कमाई से अपने पेट भरें  
और उपरी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर  
में रखें
- ११ और तू अपने अन्त समय में  
जब तेरा शरीर क्षीण हो तब यह कहकर हाथ  
मारने लगे कि
- १२ मैं ने शिक्षा से कैसा बैर किया  
और डाँटनेहारे का कैसा तिरस्कार किया
- १३ और मैं ने अपने गुरुओं की बातें न मानी  
और अपने सिखानेहारों की ओर कान न  
लगाया ॥

- मैं लगभग सब बुराइयों में पड़ने पर था  
और यह समा और मण्डली के बीच हुआ ॥
- तू पानी अपने ही कुण्ड से  
और अपने ही कुण्ड के साँते का जल  
पिया कर ॥
- क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में  
और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने  
पाए ॥
- यह केवल तेरे ही लिये रहे  
और तेरे संग बिरानों के लिये न हो ॥
- तेरा सोता धन्य रहे  
और अपनी जवानी की स्त्री के साथ आनन्दत  
रह ॥
- वह प्रिय हारिणी वा सुन्दर साबरनी के समान  
उहरे
- सो तू उसी के स्तनों से सर्वदा सन्तुष्ट रह  
और नित्य उसी के प्रेम से मोहित रह ॥
- हे मेरे पुत्र तू पराई स्त्री पर क्यों मोहित हो  
और बिरानी को क्यों छाती से लगाए ॥
- क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे  
नहीं हैं
- और वह उस के सारे पथों का विचार करता  
है ॥
- दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा  
और अपने ही पाप के बंधनों से बंधा  
रहेगा ॥
- वह शिक्षा बिना मर जाएगा  
और अपनी बड़ी मूढता के कारण भटकता  
रहेगा ॥

६. हे मेरे पुत्र यदि तू अपने पड़ोसी  
का जामिन हुआ हो  
वा बिराने के हाथ पर हाथ मारा हो  
तो तू अपने ही मुँह के वचनों से फंसा  
और उन से बंध गया है ॥
- सो हे मेरे पुत्र एक काम कर  
तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है  
इसलिये जा उस को साक्षात् प्रणाम करके  
मना ले ॥
- तू न तो अपनी आँखों में नींद  
और न अपनी पलकों में भ्रुपकी आने दे ॥  
अपने को छुड़ा

- जैसे हरिणी वा चिड़िया व्याध के हाथ से ॥  
 ६ हे आलसी चूंटियों के पास जा  
 उन के काम सोच सोचकर बुद्धिमान हो ॥  
 ७ उन के न तो कोई म्याथी होता है  
 और न प्रधान न प्रभुता करनेहारा ॥  
 ८ तौभी वे अपना आहार धूपकाल में संचय  
 करती  
 और कटनी के समय अपनी भोजनवस्तु बटो-  
 रती हैं ॥  
 ९ हे आलसी तू कब लों सेता रहेगा  
 तेरी नींद कब टूटेगी  
 १० तनिक और सो लेना  
 तनिक और झुपकी ले लेना  
 तनिक और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना,  
 ११ तब तेरा कंगालपन बटमार की नाईं  
 और तेरी घटी हाथियारबन्द के समान आ  
 पड़ेगी ॥  
 १२ ओछे और अनर्थकारी को देखा  
 वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है ॥  
 १३ वह नैन से सैन और पांव से इशारा करता  
 और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है ॥  
 १४ उस के मन में उलट फेर की बातें रहतीं  
 वह लगातार बुराई गढ़ता है  
 और भगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है ॥  
 १५ इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी  
 वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने  
 का कोई उपाय न रहेगा ॥  
 १६ छः वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है  
 बरन सात हैं जिन से उस का जीव धिनाता है ॥  
 १७ अर्थात् घमण्ड से चढ़ी हुई<sup>१</sup> आखें झूठ बोलने-  
 हारी जीभ  
 और निर्दोष का लोहू बहानेहारे हाथ  
 १८ अनर्थ कल्पना गढ़नेहारा मन  
 बुराई करने का वेग दौड़नेहारे पांव  
 १९ झूठ बोलनेहारा साक्षी  
 और भाइयों के बीच भगड़ा उत्पन्न करनेहारा  
 मनुष्य ॥  
 २० हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान  
 और अपनी माता की शिक्षा को न तज ॥  
 २१ इन को अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रह  
 और अपने गले का हार बना ॥

(१) मूल में ऊंची ।

- वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई २२  
 और सोते समय तेरी रक्षा  
 और जागते समय तुझ से बातें करेगी ॥  
 २३ आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति ठहरी  
 और सिखानेहारे की डांट जीवन का माग  
 ठहरी है  
 कि तू बुरी स्त्री की २४  
 और बिरानी स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से  
 बचे ॥  
 उस की सुन्दरता देखकर अपने मन में उस की २५  
 अभिलाषा न कर  
 वह तुझे अपने कटाक्षों<sup>२</sup> से फंसाने न पाए ॥  
 क्योंकि वैश्यागमन के कारण एक ही रोटी रह २६  
 जाती है  
 पर व्यभिचारिन अनमोल जीवन का अहेर कर  
 लेती है ॥  
 क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग २७  
 रख ले  
 और उस के कपड़े न जलें ॥  
 क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर २८  
 चले  
 और उस के पांव न जलें ॥  
 जो पराई स्त्री के पास जाता है उस की दशा २९  
 ऐसी है  
 बरन जो कोई उस को छुएगा सो दरद से न  
 बचेगा ॥  
 जो चोर भूल के मारे अपना पेट भरने के लिये ३०  
 चोरी करे  
 उस को तो लोग तुच्छ नहीं जानते  
 तौभी यदि पकड़ा जाए तो उस को सातगुणा भर ३१  
 देना  
 बरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा ॥  
 पर जो परस्त्रीगमन करता है सो निरा निर्बाध है ३२  
 जो अपने प्राण को नाश करना चाहता है वही ऐसा  
 करत है ॥  
 उस को घायल और अपमानित होना पड़ेगा ३३  
 और उस की नामधराई कभी न मिटेगी ॥  
 क्योंकि जलन रखने से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो ३४  
 जाता है  
 और पलटा लेने के दिन वह कुछ कामलता नहीं  
 करता ॥

(२) मूल में पलकों ।

- १५ वह घूस पर दृष्टि न करेगा  
और चाहे तू उस का बहुत कुल्ल दे तौभी वह न  
मानेगा ॥
- ७ हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर  
और मेरी आशाओं को अपने मन में  
रख छोड़ ॥
- २ मेरी आशाओं को मान इस से तू जीता रहेगा  
और मेरी शिक्षा को आंख की पुतली जान ॥
- ३ उन को अपनी अंगुलियों में बांध  
और अपनी हृदय की पटिया पर लिख ले ॥
- ४ बुद्धि से कह कि तू मेरी बहिन है  
और समझ को अपनी साथिन कह ॥
- ५ तब तू पराई स्त्री से बचेगा  
जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है ॥
- ६ मैं ने एक दिन अपने घर की खिड़की से  
अपने भेरोखे से भांका
- ७ तब मैं ने भीले लोगों में से  
एक निर्बाँद जवान को देखा ॥
- ८ वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क में  
चला जाता था  
और उस ने उस के घर का मार्ग लिया ॥
- ९ तब दिन दल गया और संध्याकाल आ गया था  
बरन रात का चोर अंधकार छा गया था  
और उस से एक स्त्री मिली  
जिस का मेष वेश्या का सा था और वह बड़ी  
धूर्त्त थी ॥
- ११ वह शान्तिरहित और चंचल थी  
वह अपने घर में न ठहरती थी ॥
- १२ कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी  
और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी ॥
- १३ सो उस ने उस जवान को पकड़कर चूम  
और निलंबता की चेष्टा करके उस से कहा
- १४ मुझे मेलबलि चढ़वाने के  
सो मैं ने अपनी मसतें आज ही पूरी का हैं ॥
- १५ इसी कारण मैं तुझ से भेंट करने का निकली  
मैं तेरे दर्शन की खोजी थी सो अभी पाया है ॥
- १६ मैं ने अपने पलंग पर बिछौने  
बरन मिस के बेलबूटेवाले कपड़े बिछाये हैं ॥
- १७ मैं ने अपने बिछौने पर  
गन्धरस अगर और दारचीनी छिड़की हैं ॥
- १८ सो चल हम प्रेम से भोर लो जी बहलाते रहें  
हम परस्पर की प्रीति से आनन्दित रहें ॥

- क्योंकि मेरा पति घर में नहीं १९  
वह दूर देश को चला गया है ॥  
वह चान्दी की थैली ले गया २०  
और पूर्णमासी के लौट आएगा ॥  
ऐसी ही बातें कह कह कर उस ने उस का अपनी २१  
प्रबल माया में फंसा लिया  
और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उस का अपने  
बश कर लिया ॥  
वह तुरन्त उस के पीछे हो लिया २२  
जैसे बैल कसाई खाने का  
वा जैसे बेड़ी पहिने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने का  
जाता है ॥  
अन्त में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा २३  
जाएगा  
वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर  
बेग से उड़े  
और न जानती हो कि उस में मेरा प्राण जाएगा ॥  
अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो २४  
और मेरी बातों पर मन लगाओ ॥  
तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे २५  
और न उस की डगरो में भटक कर जा ॥  
क्योंकि बहुत लोग उस से मारे पड़े हैं २६  
उस के घात किये हुआ की एक बड़ी संख्या  
होगी  
उस का घर अधोलोक का मार्ग है २७  
वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है ॥
- ८ क्या बुद्धि नहीं पुकारती  
क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं  
बोलती ॥  
वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर २  
और तिरुहानियों में खड़ी होती है ॥  
फाटकों के पास नगर के पैठाव में ३  
और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है कि  
हे मनुष्यों मैं तुम को पुकारती हूँ ४  
और मेरी बात सब आदामियों के लिये है ॥  
हे भोलो चतुराई सीखी ५  
और हे मूर्खों अपने मन में समझ लो ॥  
सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी ६  
और जब मुंह खोलूंगी तब उस से सीधी बातें  
निकलेंगी ॥  
और मुझ से सच सच बातों का वर्णन होगा ७  
और दुष्टता की बातों से मुझ को घिन आती है ॥

- ८ मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं  
उन में से कोई टेढ़ी वा उलट फेर की बात  
नहीं है ॥
- ९ समझवाले के लिये वे सब सहज  
और ज्ञान के प्राप्त करनेहारों लिये निरी  
सीधी हैं ॥
- १० चान्दी नहीं मेरी शिक्षा ही लो  
और उत्तम कुन्दन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण  
करो ॥
- ११ क्योंकि बुद्धि मंगे से भी अच्छी है  
और सब मनभावनी वस्तुएं उस के तुल्य नहीं ॥
- १२ मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में बास करती  
और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ ॥
- १३ यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है  
धमएड अहंकार और बुरी चाल से  
और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ ॥
- १४ उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है  
मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है ॥
- १५ मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते  
और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं ॥
- १६ मेरे ही द्वारा हाकिम और रईस  
और पृथिवी के सब न्यायी शासन करते हैं ॥
- १७ जो मुझ से प्रेम रखते हैं उन में मैं भी प्रेम  
रखती हूँ  
और जो मुझ को यत्न करके खोजते हैं सो मुझे  
पाते हैं ॥
- १८ मेरे पास धन और प्रतिष्ठा  
ढहरनेहारा धन और धर्म भी हैं ॥
- १९ मेरा फल चोखे सोने से बरन कुन्दन से भी  
उत्तम है  
और मेरी उपज उत्तम चान्दी से अच्छी है ॥
- २० मैं धर्म की बाट में  
और न्याय की डगरों के बीच चलती हूँ  
जिस से मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी करूँ  
और उन के भण्डारों को भर दूँ ॥
- २१ यहांवा ने मुझे काम करने के आरंभ में  
बरन अपने प्राचीनकाल के कामों से भी पहिले  
उत्पन्न किया ॥
- २२ मैं सदा से बरन आदि ही से  
पृथिवी के होने से पहिले ढहराई गई ॥

- जब न तो गहिरा सागर था २४  
और न जल के सोते थे तब ही मैं उत्पन्न हुई ॥
- जब पहाड़ वा पहाड़ियां स्थिर न की गई थीं २५  
जब यहोवा ने न तो पृथिवी और न मैदान २६  
न जगत की धूलि के परमाणु बनाये थे  
तब ही मैं उत्पन्न हुई ॥
- जब उस ने आकाश को स्थिर किया तब मैं २७  
वहां थी  
जब उस ने गहरे सागर के ऊपर आकार मण्डल  
ढहराया  
जब उस ने आकाशमण्डल को ऊपर से स्थिर २८  
किया  
और गहरे सागर के सोते फूटने लगे  
जब उस ने समुद्र का सिवाना ढहराया २९  
कि जल उस की आज्ञा का उल्लापन न कर सके  
और जब वह पृथिवी की नेब की डोरी  
लगाता था  
तब मैं कारीगर सी उस के पास थी ३०  
और दिन दिन सुख करते हुए  
हर समय उस के साम्हने हुलसती हुई थी ॥  
मैं उस की बसाई हुई पृथिवी पर हुलसती हुई थी ३१  
और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था ॥  
सो अब हे मेरे पुत्रो मेरी सुनो ३२  
क्या ही धन्य वे हैं जो मेरे मार्ग पकड़े रहते हैं ॥  
शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ ३३  
उस के विषय सुनी अनसुनी न करो ॥  
क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता ३४  
बरन मरी डेवड़ी पर दिन दिन खड़ा  
और मेरे द्वारा के खंभों के पास तक लगाये  
रहता है ॥  
क्योंकि जो मुझे पाता सो जीवन का पाता है ३५  
और यहोवा उस से प्रसन्न होता है ॥  
पर जो मेरा अपराध करता<sup>२</sup> सो अपने ही पर ३६  
उपद्रव करता है  
जितने मुझ से बैर रखते सो मृत्यु से प्रीति  
रखते हैं ॥

६. बुद्धि ने<sup>३</sup> अपना घर बनाया  
और उस के सातों खंभे गढ़े हैं ॥

(२) वा जिस की मुझ से भूल के कारण भेंट नहीं होती ।  
(३) मूल में बुद्धियों ने ।

- १ उस ने अपने पशु बध करके अपने दाखमधु में मसाला मिलाया और अपनी मेज लगाई है ॥
- २ उस ने अपनी सहेलियां सब को बुलाने के लिये मेजी है वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है कि
- ४ जो कोई भोला है सो मुड़कर यहीं आए और जो निर्बुद्धि है उस से वह कहती है कि
- ५ आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाये हुए दाखमधु का पीओ ॥
- ६ भोलों का संग छोड़ो और जीते रहो समझ के मार्ग में सीधे चलो ॥
- ७ जो ठट्टा करनेहारे को शिक्षा देता सो अमान और जो दुष्ट जन को डांटता सो कलंक पाता है ॥
- ८ ठट्टा करनेहारे को न डांट न हो कि वह तुझ से बैर रखे बुद्धिमान् को डांट वह तो तुझ से प्रेम रखेगा ॥
- ९ बुद्धिमान् को शिक्षा दे वह आधिक बुद्धिमान् होगा धर्मी की चिंता वह अनी विद्या बढ़ाएगा ।
- १० बुद्धि का आरंभ यहोवा का भय मानना है और परमपवित्र ब्रह्म को जानना ही समझ है ॥
- ११ मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के बरस अधिक होंगे ॥
- १२ यदि तू बुद्धिमान् हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा और यदि तू ठट्टा करे तो दण्ड केवल तू ही भोगेगा ॥
- १३ मूर्खतारूपी स्त्री होगी मचानेहारी है वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती ॥
- १४ वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में मच्चिया पर बैठी हुई जो बटेही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं
- उन को यह कह कहकर पुकारती है कि
- १६ जो कोई भोला है सो मुड़कर यहीं आए और जो निर्बुद्धि है उस से वह कहती है कि
- १७ चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है और वह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेबतहरी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं ॥

## १०. सुलैमान के नीतिवचन ।

बुद्धिमान् पुत्र से पिता आनन्दित

- होता है
- पर मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है ॥
- दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता २
- पर धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है ॥
- धर्मी को यहोवा भूलों मरने नहीं देता ३
- पर दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता ॥
- जो काम में ढिलाई करता है सो निर्धन हो जाता है ४
- पर कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं ॥
- जो बेटा धूपकाल में बटेरता सो बुद्धि से काम करनेहारा है ५
- पर जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा करता है सो लजा का कारण होता है ॥
- धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं ६
- पर उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है ॥
- धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं ७
- पर दुष्टों का नाम मिट जाता है ॥
- जो बुद्धिमान् है सो आशाओं की स्वीकार करता है ८
- पर जो बकवादी और मूढ़ है सो गिरा दिया जाता है ॥
- जो खराई से चलता सो निडर चलता है ९
- पर जो टेढ़ी चाल चलता उस की चाल प्रगट हो जाती है ॥
- जो नैन से नैन करता उस से औरों को दुख मिलता है १०
- और जो बकवादी और मूढ़ है सो गिरा दिया जाता है ॥
- धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है ११
- पर उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है ॥
- बैर से तो मगड़े उत्पन्न होते हैं १२
- पर प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं ॥
- समझवालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है १३
- पर निर्बुद्धि की पीठ के लिये कोड़ा है ।
- बुद्धिमान् लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं १४
- पर मूढ़ के बोलने से बिनाश निकट आता है ॥
- धनी का धन उसका डढ़ नगर है १५

(१) मूल में धर्मी के स्थान ।

- पर कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते हैं ॥
- १६ धर्मी का पारश्रम जीवन के लिये होता है पर दुष्ट के लाभ से पार होता है ॥
- १७ जो शिक्षा पर चलता सो औरों के लिये जीवन की बात है पर जो डांट से मुँह मोड़ता सो औरों को भटका देता है ॥
- १८ जो बैर को छिग रखता सो भूठ बोलता है और जो अपवाद फैलाना है सो मूर्ख है ॥
- १९ जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है पर जो अपने मुँह को बन्द रखता सो बुद्धि से काम करता है ॥
- २० धर्मी के वचन तो उत्तम चाँदी हैं पर दुष्टों का मन बहुत हलका है ॥
- २१ धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है पर मूढ़ लोग निर्वर्द्धि होने के कारण मर जाते हैं ॥
- २२ धन यहाँवा की आशिष ही से मिलता है और वह उस के साथ दुःख नहीं मिलता ॥
- २३ मूर्ख को तो महापाप करना हँसी की बात जान पड़ती है पर समझगले पुरुष में बुद्धि रहती है ॥
- २४ दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है सोई उस पर आ पड़ती है और धर्मीयों की लालसा पूरी होती है ॥
- २५ बवरण्डर निकल जाने ही दुष्ट जन रहता नहीं पर धर्मी सदा के लिये नेव है ॥
- २६ जैसे दाँत को सिरका और आँख को धूआँ वैसे आलसी उन को लगता है जो उस को कहीं मेजते हैं ॥
- २७ यहाँवा के भय मानने से आयु बढ़ती है पर दुष्ट का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है ॥
- २८ धर्मीयों को आशा रखने में आनन्द मिलता है पर दुष्टों की आशा टूट जाती है ॥
- २९ यहाँवा की गति खरे मनुष्य का गढ़ ठहरती है पर उसी गति से अनर्थकारियों का विनाश होता है ॥
- ३० धर्मी सदा अटल रहेगा पर दुष्ट पृथिवी पर बसे रहने न पाएँगे ॥
- ३१ धर्मी के मुँह से बुद्धि टपकती है

- पर उलट फेर की बात कहनेहारे की जीभ काटी जाती है ॥
- धर्मी ग्रहणयोग्य बात समझ कर बोलता है ३२ पर दुष्टों के मुँह से उलट फेर की बातें निकलती हैं ॥
११. लूल के तराजू से यहाँवा को घिन आती है पर वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है ॥
- जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है २ पर नम्र लोगों में बुद्धि होती है ॥
- सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं ३ पर विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं ॥
- कोप के दिन घन से तो कुछ लाभ नहीं होता पर धर्मी मृत्यु से भी बचाता है ॥
- खरे मनुष्य का मार्ग धर्मी के कारण सीधा ५ होता है पर दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है ॥
- सीधे लोगों का बचाव उन के धर्मी के कारण ६ होता है पर विश्वासघाती लोग अपनी दुष्टता के कारण फँसते हैं ॥
- जब दुष्ट मरता तब उस की आशा टूट जाती है ७ और अनर्थ पर जो आशा रखी जाती सो नाश होती है ॥
- धर्मी विपत्ति से छूट जाता ८ पर दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है १ ॥
- भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुँह की ९ बात से बिगाड़ता है पर धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं ॥
- जब धर्मीयों का कल्याण होता है तब नगर के १० लोग हुलसते हैं पर जब दुष्ट नाश होते तब जयजयकार होता है ॥
- सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है ११ पर दुष्टों के मुँह की बात से वह ढाया जाता है ।
- जा अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है सो निर्बुद्धि है १२ पर समझदार पुरुष चुपचाप रहता है ॥
- जो छुतराई करता फिरता सो तो भेद प्रगट करता है १३ पर विश्वासयोग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है ॥
- जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में १४ पड़ती है

- पर सम्मति देनेहारो की बहुतायत के कारण बचाव होता है ॥
- १५ जो बिराने का जामिन होता सो बड़ा दुःख उठाता है  
पर जो जमानत से बिन करता सो निडर रहता है ॥
- १६ अनुग्रह करनेहारी स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती और बलात्कारी लोग धन का नहीं खोते ॥
- १७ कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है पर जो क्रूर है सो अपनी ही देह को दुःख देता है ॥
- १८ दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है पर जो धर्म का बीज बोता उस को निश्चय फल मिलता है ॥
- १९ जो धर्म में हट रहता सो जीवन पाता है पर जो बुराई का पीछा करता सो मृत्यु का कौर हो जाता है ॥
- २० जो मन के टेढ़े हैं उन से यहीवा को घिन आती है पर वह खरी चालवालों से प्रसन्न रहता है ॥
- २१ मैं हठता के साथ कहता हूँ कि बुरा मनुष्य तो निर्दोष न ठहरेगा  
पर धर्मों का बंध बचाया जाएगा ॥
- २२ जो सुन्दर स्त्री विवेक नहीं रखती सो शूयन में भोने की नथ्य पहिने हुए सूअर के समान है ॥
- २३ धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है पर दुष्ट की आशा का फल कौर दा होता है ॥
- २४ ऐसे हैं जो छिनरा देते हैं तोभी उन का बढ़ती ही होती है  
और ऐसे भी हैं जो हक से कम देते हैं और इससे उन की घटती ही होती है ॥
- २५ उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की लेती सींचता है उस की भी सींची जाएगी ॥
- २६ जो अपना अनाज रख छोड़ता है उस को लोग कोसते हैं  
पर जो उसे बेच देता है उस को आशीर्वाद दिया जाता है ॥
- २७ जो यज्ञ से भलाइ करता सो औरों की प्रसन्नता खोजता है

- पर जो दूसरे की बुराई का खोजी होता उसी पर बुराई आ पड़ती है ॥
- जो अपने धन पर भरोसा रखता सो गिर जाता है २८  
पर धर्मों लोग नये पत्ते की नाई लहलहाते हैं ॥
- जो अपने घराने को दुःख देता उस का भाग वासु २९  
ही होगा  
और मूढ बुद्धिमान् का दास हो जाता है ॥
- धर्मों का प्रतिफल जीवन का वृद्ध होता है ३०  
और बुद्धिमान् मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है ॥
- देख धर्मों को पृथिवी पर फल मिलेगा ३१  
तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भां मिलेगा ॥

१२. जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता सो शान ही में प्रीति रखता है  
पर जो डाट से बैर रखता सो पशु समीखा है ॥
- भले मनुष्य से तो बहोवा प्रसन्न होता है २  
पर बुरी युक्ति करनेहारे को वह दोषा ठहराता है ॥
- कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता ३  
पर धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं ॥
- भली स्त्री अपने पति का मुकुट है ४  
पर जो लजा के काम करती सो माने उस की हड्डियों के सड़ने का कारण होता है ॥
- धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं ५  
पर दुष्टों की युक्तियां लाल का हैं ॥
- दुष्टों की बातचीत खून करने के लिये घात लगाने के विषय होती है ६  
पर सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा झुड़ानहार होते हैं ॥
- जब दुष्ट लोग उलटे जाते तब वे रहते ही नहीं ७  
पर धर्मियों का घर स्थिर रहता है ॥
- मनुष्य की बुद्ध के अनुसार उस की प्रशंसा ८  
होती है  
पर कुटिल तुच्छ जाना जाता है  
जो गेटी का दुखिया होता है पर बड़ाई ९  
मारता है
- उस से दास रखनेहारा तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है ॥  
धर्मों अपन पशु के भी प्राण की सुध रखता है १०  
पर दुष्टों की ज्या भी नदयता है ॥
- जो अपना भूम को जोतता सो पेट भर खाता है ११  
पर जो निकम्मों की संगति करता सो निर्बुद्ध ठहरता है ॥

- १२ दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं  
पर धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है ॥
- १३ बुरा मनुष्य अपने दुर्बचनों के कारण फन्दे में फँसता है  
पर धर्मी संकट से निकास पाता है ॥
- १४ सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है  
और जैसी जिस की करनी वैसी उस की भरनी १ ॥
- १५ मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है  
पर जो सम्मति मानता सो बुद्धिमान् है ॥
- १६ मूढ़ की गिस उसी दिन प्रगट हो जाती है  
पर चतुर अमान को झिपा रखता है ॥
- १७ जो सच बोलता सो धर्म  
पर, जो झूठी सच्ची देता सो क्लृप्त प्रगट करता है ॥
- १८ ऐसे लोग हैं जिन का बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है  
पर बुद्धिमान् के बोलने से लाग चंगे हांते हैं ॥
- १९ सच्चाई<sup>२</sup> सदा लो बनी रहेगी  
पर झूठ<sup>३</sup> पल ही भर का होता है ॥
- २० बुरी युक्त करनेहार के मन में क्लृप्त रहता है  
पर मेल की युक्त करनेहार का आनन्द होता है ॥
- २१ धर्मी को हानि नहीं होती  
पर दुष्ट लाग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं<sup>४</sup> ॥
- २२ झूठे से यहोरा को धिन आती है  
पर जो विश्वास से काम करते हैं उन से वह प्रसन्न होता है ॥
- २३ चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रगट नहीं करता  
पर मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है ॥
- २४ कामकाजी प्रभुता करते हैं  
पर आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं ॥
- २५ उदास मन दब जाता है  
पर भली बात से वह आनन्दित होता है ॥
- २६ धर्मी अपने पड़ेसी की अगुवाई करता है  
पर दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं ॥

(१) मूल में मनुष्य के हाथों का फल उस को लोट जाता है । (२) मूल में सच्चाई का होंठ । (३) मूल में झूठी जीभ । (४) मूल में विपत्ति से भर जाते हैं ।

- आलसी अहेर का पीड़ा नहीं करता २७  
पर कामकाजी को अनमाल वस्तु मिलती है ॥  
धर्म की भाट में जीवन मिलता है २८  
और उस के पथ में मृत्यु का पता भी नहीं ॥

### १३. बुद्धिमान् पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है

- पर ठट्टा करनेहार घुड़की को भा नहीं सुनता ॥  
सज्जन अपनी बातों के कारण २  
उत्तम वस्तु खाने को पाता है  
पर विश्वासघाती लोगों का पेट<sup>५</sup> उपद्रव से भगता है ॥  
जो अपने दुष्ट को चौकसी करता सो अपने प्राण ३  
की रक्षा करता है  
पर जो गाल बजाता उस का विनाश हो जाता है ॥  
आलसी जन जो से लालसा तो करता है पर उस ४  
का कुछ नहीं मिलता  
पर कामकाजी दुष्ट पुष्ट हो जाते हैं ॥  
धर्मी झूठे वचन से बच रखता है ५  
पर दुष्ट लजा का कारण और लाजत हो जाता है ॥  
धर्म खरी चाल चलनेहार की रक्षा करता है ६  
पर पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है ॥  
कोढ़े तो धन बटारता पर उस के पास कुछ नहीं ७  
रहता  
और कोढ़े धन उड़ा देता तौभी उस के पास बहुत रहता है ॥  
प्राण की छुड़ीती मनुष्य का धन है ८  
पर निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं ॥  
धर्मियों की ज्योति आनन्द के साथ रहती है ९  
पर दुष्ट का दिया बुझ जाता है ॥  
अगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं १०  
पर जो लाग सम्मति मानते हैं उन के बुद्धि रहती है ॥  
फांकट का<sup>६</sup> माल नहीं ठहरता ११  
पर जो अपने परिश्रम से बटारता उस की बढ़ती होती है ॥  
जब आशा पूरी हाने में बलम्ब होता तो मन १२  
शियल होता है

(५) मूल में प्राण ।

(६) मूल में अपने को निर्धन करता ।



- पर जब लालसा पूरी होती तब जोवन का वृक्ष  
लगता है ॥
- १३ जो वचन को तुच्छ जानता सो नाश हो जाता है  
पर आशा के इरवैये को अच्छा फल मिलता है ॥
- १४ बुद्धिमान् की शिक्षा जीवन का सोता है  
और उस के द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच  
सकते हैं ॥
- १५ सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है  
पर विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है ॥
- १६ सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं  
पर मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है ॥
- १७ दुष्ट दूत बुराई में फंसता है  
पर विश्वासयोग्य एलची से कुशलक्षेम होता है ॥
- १८ जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता सो निर्धन  
होता और अपमान पाता है  
पर जो डाट को मानता उस की माहमा हाती है ॥
- १९ लालसा का पूरा होना तो जीव को मीठा  
लगता है  
पर बुराई से हटना मूर्खों की धिनीना लगता है ॥
- २० बुद्धिमानों की सगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो  
जाएगा  
पर मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा ॥
- २१ बुराई पापियों के गीछे पड़ती है  
और धार्मियों को अच्छा फल मिलता है ॥
- २२ भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिये भाग छोड़  
जाता है  
पर पापी की सगति धर्म्मों के लिये रक्खा  
जाती है ॥
- २३ निर्बल लोगों को खेती बारी से बहुत भोजनवस्तु  
मिलती है  
पर ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट  
जाते हैं ॥
- २४ जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता सो उस का बैरी है  
पर जो उस से प्रेम रखता सो यत्न से उस को  
शिक्षा देता है ॥
- २५ धर्म्मों बेट भर खाने पाता है  
पर दुष्ट भूखे ही रहते हैं ॥

१४. हर बुद्धिमान् स्त्री अपने घर को  
बनाती है

पर मूढ़ स्त्री उस को अपने ही हाथों से दा  
देती है ॥

- जो सीधाई से चलता सो यहोवा का भय २  
माननेहारा
- पर जो टेढ़ी चाल चलता सो उस को तुच्छ  
जाननेहारा उधरता है ॥
- मूढ़ के मुँह में गबं का अंकुर है ३  
पर बुद्धिमान् लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा  
पाते हैं ॥
- जहां बैल नहीं वहां गोशाला निर्मल तो रहती है ४  
पर बैल के बल से बड़ा ही लाभ होता है
- सच्चा साक्षी भूठ नहीं बोलता ५  
पर झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है ॥
- ठट्टा करनेहारा बुद्धि को हूँढ़ता पर नहीं पाता ६  
पर समझवाले को ज्ञान सहज से मिलता है ॥
- मूर्ख से अलग हो जा ७  
तू उस से ज्ञान की बात न पाएगा २ ॥
- चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है ८  
पर मूर्खों की मूढ़ता छुल करना है ॥
- मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्टा जानते हैं ९  
पर सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है ॥
- मन अपना ही दुःख जानता है १०  
और बिराना उस के आनन्द में हाथ नहीं डाल  
सकता ॥
- दुष्टों का घर विनाश हो जाता है ११  
पर सीधे लोगों के तबू में लहलहाना होता है ॥
- ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है १२  
पर उस के अन्त में मृत्यु ही मिलती है ॥
- हंसी के समय भी मन उदास होता है १३  
और आनन्द के अन्त में शोक होता है ॥
- जिस का मन ईश्वर की ओर से हट जाता है १४  
वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है
- पर भला मनुष्य आप ही आप सन्तुष्ट होता है ॥
- भोला तो हर एक बात को सच मानता है १५  
पर चतुर मनुष्य समझ बूझकर चलता है ॥
- बुद्धिमान् डरकर बुराई से हटता है १६  
पर मूर्ख दौंठ होकर निडर रहता है ॥
- जो भट क्रोध करे सो मूढ़ता का काम भी करेगा १७  
पर जो बुरी युक्तियां निकालता है उस से लोग  
बैर रखते हैं ॥
- भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है १८  
पर चतुरों को ज्ञानरूपी मुकुट बांधा जाता है ॥
- बरे लोग भलों के सन्मुख १९

(१) मूल में न जानेगा ।

- और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दण्डवत् करते हैं ॥
- २० निर्धन का पड़ोसी भी उस से घिन करता है पर धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं ॥
- २१ जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता सो पाप करता है पर जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता सो धन्य होता है ॥
- २२ जो बुरी युक्ति निकालते हैं सो क्या भ्रम में नहीं पड़ते पर भली युक्ति निकालनेहारों से कृपा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है ॥
- २३ परिश्रम से सदा लाभ होता है पर शकवाद करने से केवल घटती होती है ॥
- २४ बुद्धिमानों का धन उन का मुकुट उधरता है पर मूर्खों की मूढ़ता निरी मूढ़ता है ॥
- २५ सच्चा साक्षात् बहुतों के प्राण बचाता है पर जो झूठी बातें उड़ाया करता है उस से धोखा ही हाता है ॥
- २६ यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उस के पुत्रों को शरणस्थान मिलता है ॥
- २७ यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उस के द्वारा लोग मृत्यु के फन्दों से बच सकते हैं ॥
- २८ राजा की महिमा प्रजा का बहुतायत से होती है पर जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम नारा हो जाता है ॥
- २९ जो विलम्ब से क्रोध करनेहारा है सो बड़ा समझवाला है पर जो अभीर है सो मूढ़ता की बढ़ती करता है ॥
- ३० शान्त मन तन का जीवन है पर मन के जलने से हड़िया भी जल जाती हैं ॥
- ३१ जो कगल पर अँधेरे करता सो उस के कर्त्ता की निन्दा पर जो दारुद्र पर अनुग्रह करता सो उस की महिमा करता है ॥
- ३२ दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है पर धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है ॥
- ३३ समझवाले के मन में बुद्धि वास किये रहती है

(१) मूल में सब ।

पर मूर्खों के अन्तःकाल में जो कुछ है सो पगट हो जाता है ॥

जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है २४

पर पाप से देश के लोग<sup>२</sup> का अपमान होता है ॥

जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता उस पर ३५

राजा प्रसन्न होता है

पर जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है ॥

१५. कोपल उत्तर सुनने से जलजलाहट थपडी होती है

- पर कटुवचन से कोप धधक उठता है ॥
- बुद्धिमान् ज्ञान का ठीक बखान करते हैं २
- पर मूर्खों के मुँह से मूढ़ता उबल आती है ॥
- यहोवा की आज्ञा सब स्थानों में लगी रहती है ३
- वह बुरे भले दोनों को ताकता रहता है ॥
- शांत देनेहारों बात जीवन वृक्ष है ४
- पर उलट फेर की बात से आत्मा दुःखित होना है ॥
- मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिस्कार करता है ५
- पर जो डाँट को मानता सो चतुर हो जाता है ॥
- धर्मी के घर में बहुत धन रहता है ६
- पर दुष्ट के उपाजन में दुःख रहता है ॥
- बुद्धिमान् लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं ७
- पर मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता ॥
- दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घिन करता है ८
- पर वह सीधे लोगों का प्रार्थना से प्रसन्न होता है ॥
- दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घिन आती है ९
- पर जो धर्म का पीछा करता उस से वह प्रेम रखता है ॥
- जो मार्ग को छोड़ देता उस का बड़ा ताड़ना १०
- मिलती है
- और जो डाँट से बैर रखता सो मर ही जाता ॥
- जब कि अशोचक और विनाशलोक यहोवा के ११
- साम्हने खुले रहते हैं
- तो निश्चय मनुष्यों के मन भी ॥
- ठगू करनेहारा डाँटे जाने से प्रसन्न नहीं होता १२
- और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है ॥
- मन आनन्दित होने से मुख पर भाँ प्रकृता छा १३
- जाती है
- पर मन के दुःख से आत्मा निराश होता है ॥

(२) मूल में समुदाय समुदाय के लोगों ।

- १४ समझनेहारे का मन ज्ञान की खोज में रहता है  
पर मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं ॥
- १५ दुखिया के सब दिन दुःख भर रहते हैं  
पर जिस का मन प्रसन्न रहता है सो मानो नित्य  
मोक्ष म जाता है ॥
- १६ घबराहट के साथ बहुत रङ्गसे हुए धन से  
यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है ॥
- १७ बैर रहते ऐसे हुए बेल का मांस खाने से  
प्रेम रहते सागपात का भी भांजन उत्तम है ॥
- १८ क्रोधी पुरुष भगड़ा मचाता है  
पर जो विलम्ब से क्रोध करनेहार है सो मुकद्दमा  
को दबा देता है ॥
- १९ आलसी का मार्ग काटों से रुन्धा हुआ होता है  
पर सीधे लोगों की बाट राजमार्ग ठहरती है ॥
- २० बुद्धिमान् पुत्र से पिता आनन्दित हाता है  
पर मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है ॥
- २१ निबुद्धि को मूढ़ता से आनन्द होता है  
पर समझवाला मनुष्य सीधी चाल चलता है ॥
- २२ बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं  
पर बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती  
है ॥
- २३ सज्जन उत्तर देने से आनन्दित होता है  
और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला  
होता है ॥
- २४ बुद्धिमान् के लिये जीवन की बाट ऊपर की ओर  
जाती है  
इस रीति वह अधोलोक में पड़ने से बच  
सकता है ॥
- २५ यहोवा अहंकारियों के घर को टा देता  
पर विधवा के सिवाने को अटल रखता है ॥
- २६ बुरी कल्पनाएं यहोवा को धिनौनी लगती  
पर मनभावने वचन शुद्ध हैं ॥
- २७ लालची अपने घराने को दुःख देता है  
पर घूस से बिन करनेहारा जीता रहता है ॥
- २८ धर्मा मन में सोचता है कि क्या उच्चर दू  
पर दुष्टों के मुँह से बुरी बातें उबल आती हैं ॥
- २९ यहोवा दुष्टों से दूर रहता है  
पर धार्मियों की प्रार्थना सुनता है ॥
- ३० आंखों की चमक से मन को आनन्द होता है  
और अच्छे समाचार से हँसियां पुष्ट होती हैं ॥
- ३१ जो जीवनदायी डाँट कान लगाकर सुनता है  
सो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है ॥

जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता सो अपने ३२  
प्राण को तुच्छ जानता है  
पर जो डाँट को सुनता सो बुद्धि प्राप्त करता है ॥  
यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है ३३  
और महिमा से पाहले नम्रता होती है ॥

### १६. मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है

पर मुँह से कहना यहोवा की ओर से होता है ॥  
मनुष्य का सारा चाल चलन अपने लेखे में पवित्र २  
ठहरता है  
पर यहोवा मन को लौलता है ॥  
अपने कामों को यहोवा पर डाल ३  
इस से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी ॥  
यहोवा ने सब वस्तुएं उस के प्रयोगन के ४  
लिये  
अन दुष्ट को भी बिपत्ति भोगने के लिये  
बनाया है ॥  
सब मन के धमरिडियों से यहोवा बिन करता ५  
है  
मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि ऐसे लोग निर्दोष न  
ठहरेंगे ॥  
अधर्म का प्रायश्चित्त कृपा और सच्चाई से ६  
होता है  
और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई  
करने से बच जाते हैं ॥  
जब किसी का चाल चलन यहोवा को ७  
भावता है  
तब वह उस के शत्रुओं का भी उस से मेल  
करता है ॥  
अन्याय के बड़े लाभ से ८  
न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है ॥  
मनुष्य मन में अपने मार्ग को विचारता है ९  
पर यहोवा ही उस के पैरों को स्थिर करता है ॥  
राजा के मुँह से दैवीवाणी निकलती है १०  
न्याय करने में उस से चूक नहीं होती ॥  
सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से ११  
होते हैं  
धैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनबाये  
हुए हैं ॥  
दुष्टता करना राजाओं के लिये धिनौना काम है १२

- क्योंकि उन की गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है ॥
- १३ धर्म की बात बोलनेहारों से राजा प्रसन्न होते हैं और जो सीधी बातें बोलता है उस से व प्रेम रखते हैं ॥
- १४ राजा का कोप मृत्यु के दूत के समान है पर बुद्धिमान् मनुष्य उस को ठण्डा करता है ॥
- १५ राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है और उस की प्रसन्नता बरसात के अन्त की घटा के समान होती है
- १६ बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है और समझ की प्राप्ति चान्दी से चुनने योग्य है ॥ बुराई से दृटना सीधे लोगों के लिये राज-मार्ग है जो अपने चाल चलन की चौकसी करता सो अपने प्राण की भी रक्षा करता है ॥
- १८ विनाश से गहले गवें और डोकर खाने से पहिले घमण्ड होना ॥
- १९ घमण्डियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है ॥
- २० जो वचन पर मन लगाता सो कल्याण पाता है और जो यहोबा पर भरोसा रखता सो धन्य होता है ॥
- २१ जिस के हृदय में बुद्धि है सो समझवाला कहा-वता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है ॥
- २२ जिस के बुद्धि है उस के लिये वह जीवन का सोता है पर मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है ॥
- २३ बुद्धिमान् का मन उस के मुँह पर भी बुद्धिमानी प्रगट करता है और वचन में विद्या रहती है ॥
- २४ मनभावने वचन मधुनरे छुत्ते की नाईं जीव को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं ॥
- २५ ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है पर उस के अन्त में मृत्यु ही मिलती है ॥
- २६ परिश्रमी की लालसा उस के लिये परिश्रम करती है उस की भूख तो उस को उभारती रहती है ॥
- २७ अधम मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है

- और उस के वचनों से आग लग जाती है ॥
- टेढ़ा मनुष्य बहुत भगवों को उठाता है २८
- और कानाफूसी करनेहारा परम मित्रों में भी फूट करा देता है
- उपद्रवी मनुष्य अपने पत्नी को फुल्लाकर २९
- कुमार्ग पर चलाता है ॥
- आख मूंदनेहारा छल की कल्पनाएं करता है ३०
- और होंठ दबानेहारा बुराई करता है ॥
- पक्क बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं ३१
- वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्रसन्न होते हैं ॥
- विलम्ब से कोप करना वीरता से ३२
- और अपने मन को बश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है ॥
- चिट्ठी डाली जाती ता है ३३
- पर उस का निकलना यहोबा ही की ओर से होता है ॥

१७. चैन के साथ सूखा दुःख उठता है उस घर की अपेक्षा उत्तम है

- जो मेलबलि पशुआ से भरा हो पर उस में भगड़े रगड़े हो ॥
- बुद्धि से चलनेहारा दास अपने स्वामी के उस २
- पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करगा
- और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा ॥
- चान्दी के लिये घड़िया और सोने के लिये भट्टी ३
- होती है
- पर मनो को यहोबा तावता है ॥
- कुकर्म्मों अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है ४
- और झुठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है ॥
- जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता सो उस के कर्त्ता ५
- की निन्दा करता है
- और जो किसी की विपत्ति पर हंसता सो निदोष नहीं ठहरता ॥
- बूढ़ों की शोभा उन के नाती पोते हैं ६
- और बालबच्चों की शोभा उन के माता पिता हैं ॥
- मूढ़ का उत्तम बात फबती नहीं ७
- और अधिक करके प्रधान को झूठा बात नहीं फबती ॥
- देनेहारे के हाथ में घूँ मोहनेहारे मणिक का काम ८
- देता है

(१) मल में उस के मुँह को बुद्धिमान् करता है ।

(२) मूल में उस का मुँह ।

- जिधर ऐसा पुरुष फिरता उधर ही उस का काम  
सुफल होता है ॥
- ९ जो दूसरे के अपराध को ढांप देता सो प्रेम का  
खोजी ठहरता है  
पर जो बात की चर्चा बार बार करता है सो परम  
मित्रों में भी फूट करा देता है ॥
- १० एक बुढ़की समझवाले के मन में जितनी गड़  
जाती है  
उतनी सो बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं  
गड़ता ॥
- ११ बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है  
इसलिये उस के पास क्रूर वृत भेजा जाएगा ॥
- १२ बच्चा झीनी हुई रीछनी का मिलना तो भला है  
पर मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं ॥
- १३ जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे  
उस के घर से बुराई दूर न होगी ॥
- १४ भगड़े का आरंभ बान्ध में के छेद के समान है  
भगड़ा बढ़ने से पहिले उस को छोड़ देना ॥
- १५ जो दोषों का निर्दोष और जो निर्दोष का  
दोषी ठहरता है  
उन दोनों से यहोवा घिन करता है ॥
- १६ बुद्धि मोल लेने के लिये मूर्ख अपने हाथ  
में दाम क्यों लिये है  
वह उसे चाहता ही नहीं ॥
- १७ मित्र सब समयों में प्रेम रखता है  
और विपत्त के दिन भाई बन जाता है ॥
- १८ निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता  
और अपने पड़ोसी के यज्ञ जागिन होता है ॥
- १९ जो भगड़े रगड़े में प्रीति रखता सो अपराध करने  
में भी प्रीति रखता है  
और जो अपने फाटक को बड़ा करता सो अपने  
विनाश के लिये यत्न करता है ॥
- २० जो मन का टेढ़ा है उस का कल्याण नहीं होता  
और उलट फेर की बात करनेहारा विपत्त में  
पड़ता है ॥
- २१ जो मूर्ख को जन्माता सो उम से दुःख ही गता है  
और मूढ़ के पिता को आनन्द नहीं होता ॥
- २२ मन का आनन्द अच्छी औषध है  
पर मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं ॥
- २३ दुष्ट जन न्याय भिगाड़ने के लिये  
अपनी गांठ से धूम निकालता है ॥

(१) मूल में गांठ ।

- बुद्धि समझवाले के साम्हने ही रहती है २४  
पर मूर्ख की आंखें प्रायवी के दूर दूर देशों में लगी  
रहती हैं ॥
- मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता २५  
और जननी को शोक होता है ॥
- फिर धर्मी से दरुड लेना २६  
और प्रधानों को सिधार्थ के कारण पिटवाना  
दोनों काम अच्छे नहीं ॥
- जो संभलकर बोलता है वही शानी २७  
ठहरता
- और जिस का आत्मा शान्त रहता है सोई समझ-  
वाला पुरुष ठहरता है ॥
- मूढ़ भी जब चुप रहता तब बुद्धिमान् गिना जाता है २८  
और जो अपना मुंह बन्द रखता सो समझवाला  
गिना जाता है

१८. जो श्रौं से अलग हो जाता है सो  
अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिये

ऐसा करता

- और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है ॥  
मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता २  
वह केवल अपने मन की बात प्रगट करना  
चाहता है ॥
- जहां दुष्ट आता वहां अपमान भी आता है ३  
और निश्चित काम के साथ नामधराई जाती है ॥
- मनुष्य के मुंह के वचन गहिरा जल ४  
वा उमरुडनेहारी नदी वा बुद्धि के साते हैं ॥
- दुष्ट का पक्ष करना ५  
और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है ॥
- मूर्ख बात बढ़ाने से मुकद्दमा खड़ा करता ६  
और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है ३ ॥
- मूर्ख का विनाश उस की बातों से होता ७  
और उस के वचन उस के प्राण के लिये फंदे  
होते हैं ॥
- कानाफूसी करनेहारे के वचन स्वादिष्ट भोजन ८  
की नाईं
- पेट के भीतर पहुंच जाते हैं ॥
- फिर जो काम में आलस करता है ९  
सो खोनेहारे का भाई ठहरता है ॥
- यहोवा का नाम दड़ कोट है १०

(२) मूल में लड़ाई ।

(३) मूल में उस का मुंह मार बुलाता है ।

- ११ धर्मी उस में भागकर सब जोखिम से बचता है ॥  
 धनी का धन उस के लेखे गढ़वाला नगर  
 और ऊँचे पर बनी हुई शहरपनाह है ॥
- १२ नाश होने से पहिले मनुष्य के मन में घमण्ड  
 और महिमा पाने से पहिले नम्रता होती है ॥
- १३ जो बिना बात सुने उत्तर देता  
 सो मूढ़ ठहरता और उस का अनादर होता है ॥
- १४ रोग में मनुष्य अपने आत्मा से सम्भलता है  
 पर जब आत्मा हार जाता तब इसे कौन सह  
 सकता है ॥
- १५ समझवाले का मन ज्ञान प्राप्त करता  
 और बुद्धिमान् ज्ञान की बात की खोज में रहते  
 हैं ॥
- १६ भेंट मनुष्य के लिये राह खोल देती  
 और उसे बड़े लोगों के साम्हने पहुँचाती है ॥
- १७ मुकद्दमे में जो पहिले बोलता वही धर्मी जान  
 पड़ता  
 पर पीछे दूसरा पक्षवाला आकर उसे खोज  
 लेता है ॥
- १८ चिट्ठी डालने से भगड़े बन्द होते  
 और बलवन्तों की लड़ाई का अन्त होता है ॥
- १९ विड़े हुए भाई की मनाना हठ नगर के लेने से  
 कठिन होता है  
 और ऐसे भगड़े राजभवन के बेण्डों के समान  
 हैं ॥
- २० मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से  
 भरता है  
 और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता उस से वह  
 तृप्त होता है ॥
- २१ जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं  
 और जो उसे काम में लाना चाहे वह उसी का  
 फल भोगेगा ॥
- २२ जिस ने खी ब्याह ली उस ने उत्तम पदार्थ  
 पाया  
 और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है ॥
- २३ निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है  
 पर धनी कड़ा उत्तर देता है ॥
- २४ संगियों के बढ़ाने से तो नाश होता है  
 पर कोई ऐसा प्रेमी होता है जो भाई से भी  
 अधिक मिला रहता है ॥

१६. जो निर्धन खराई से चलता है  
 सो उस मूर्ख से उत्तम है  
 जो टेढ़ी बातें बोलता है ॥
- फिर मन का बिन ज्ञान रहना अक्का नहीं २  
 और जो उतावली से दौड़ता सो चूक जाता है ॥  
 मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है ३  
 और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है ॥  
 धनी के तो बहुत संगी हो जाते हैं ४  
 पर कंगाल के संगी उस से अलग हो जाते हैं ॥  
 झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता ५  
 और जो झूठ बोला करता है सो न बचेगा ॥  
 उदार मनुष्य को बहुत से लोग बना लेते हैं ६  
 और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है ॥  
 जब निर्धन के सब भाई उस से बैर रखते हैं ७  
 तो निश्चय है कि उस के संगी उस से दूर हो  
 जाते हैं  
 वह बातें करते करते उन का पीड़ा करता है पर उन  
 को नहीं पाता ॥  
 जो बुद्धि प्राप्त करता सो अपने प्राण का प्रेमी ८  
 ठहरता है  
 और जो समझ को धरे रहता उस का कल्याण  
 होता है ॥  
 झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता ९  
 और जो झूठ बोला करता है सो नाश  
 होता है ॥  
 जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता १०  
 तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कहाँ फवे ॥  
 जो मनुष्य बुद्धि से चलता सो बिलम्ब से कोप ११  
 करता है  
 और अपराध से आनाकानी करना मनुष्य को  
 सोहता है ॥  
 राजा का कोप सिंह की गरजना सा १२  
 पर उस की प्रसन्नता घास पर की ओस सरीखी  
 होती है ॥  
 मूर्ख पुत्र पिता के लिये विपत्ति ठहरता है १३  
 और खी के भगड़े रगड़े लगातार टपकने के  
 तुल्य होते हैं ॥  
 घर और धन पुरखाओं से भाग में १४  
 पर बुद्धिमती खी यहोवा ही से मिलती है ॥  
 आलस से भारी नींद आ जाती है १५  
 और जो प्राणी ढिलाई से काम करता सो भूखा  
 ही रहता है ॥

- १६ जो आशा को मानता सो अपने प्राण की रक्षा करता है पर जो अपने चाल चलन के विषय निश्चिन्त रहता सो मर जाता है ॥
- १७ जो कंगाल पर अनुग्रह करता सो यहोवा को उधार देता है और वह उस काम का प्रतिफल देगा ॥
- १८ अपने पुत्र की ताड़ना कर क्योंकि अब लो आशा है जान बूझकर उस को मार न डाल ॥ जो बड़ा क्रोधी है उसे दण्ड उठाने दे क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो फिर फिर बचाना पड़ेगा ॥
- २० सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अन्तकाल में बुद्धिमान ठहरे ॥
- २१ मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएँ होती हैं पर जो युक्ति यहोवा करता है सोई स्थिर रहती है ॥
- २२ मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलनेहारे से उत्तम है ॥
- २३ यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है और उस का भय माननेहारा ठिकाना पाकर सुखी रहता है उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की ॥
- २४ आलसी अपना हाथ थाली में डालता है पर अपने मुँह तक कौर नहीं उठाता ॥
- २५ ठट्टा करनेहारे को मार और इस से भोला चतुर हो जाएगा और समझवाले को डाँट तब वह अधिक ज्ञान पाएगा ॥
- २६ जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी मा को भगा देता है सो अपमान और लज्जा का कारण होगा ॥
- २७ हे मेरे पुत्र यदि भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे ॥
- २८ अधम साक्षी न्याय को ठट्टों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं ॥
- २९ ठट्टा करनेहारे के लिये दण्ड की और भूखों के लिये पीटने की तैयारी हुई है ॥

## २०. दाखमधु ठट्टा करनेहारा और महिरा होरा मचानेहारी है

- जो कोई उस के कारण चूक करता है सो बुद्धिमान नहीं ॥
- राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है २  
जो उस पर रोष करता सो अपने प्राण का अपराधी होता है ॥
- मुकद्दमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ३  
ठहरती है पर सब मूढ भगड़न को तैयार होते हैं ॥
- आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं ४  
जोतता इसलिये कटनी के समय वह भील मांगता और कुल्ल नहीं पाता ॥
- मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है ५  
तौनी समझवाला मनुष्य उस को निकाल लेता है ॥
- बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं ६  
पर सच्चा पुरुष कौन पा सकता है ॥
- धर्मी जो खराई से चलता रहता है ७  
उस के पीछे उस के लड़कैवाले धन्य होते हैं ॥
- राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है ८  
सो अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को उड़ा देता है ॥
- कौन कह सकता है कि मैं ने अपने हृदय को पवित्र ९  
किया मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ ॥
- घटती बढ़ती बटखर और घटती बढ़ती नपुए<sup>१</sup> १०  
इन दानों से यहोवा धिन करता है ॥
- लड़का भी अपने कामों से पहिंधाना जाता है ११  
कि उस का काम पवित्र और सीधा है वा नहीं ॥
- सुनने के लिये कान और देखने के लिये आंख १२  
जो हैं दोनों का यहोवा ने बनाया है ॥
- नींद से प्रीति न रख नहीं तो दरिद्र हो जाएगा १३  
आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा ॥
- मोल लेने के समय गाहक तुच्छ तुच्छ कहता है १४  
पर चले जाने पर बड़ाई करता है ॥
- सोना और बहुत से मूंगे तो हैं १५  
पर ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं ॥
- जो अनजाने<sup>२</sup> का जामिन हुआ उस का करड़ा १६

- और जो बिरानों का जामिन हुआ उस से बंधक की वस्तु ले रख ॥
- १७ चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है पर पीछे उस का मुंह कंकर से भर जाता है ॥
- १८ सब कल्पनार्थ सम्मति ही से स्थिर हांती हैं और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिये ॥
- १९ जो झुतराई करता फिरता सो भेद प्रगट करता है इसलिये बकवादी से मेल जोल न रखना ॥
- २० जो अपने माता पिता को कोसता उस का दिया बुझ जाता और घोर अन्धकार हो जाता है ॥
- २१ जो भाग पहिले उतावली से तो मिलता है अन्त में उस पर आशिष नहीं हाती ॥
- २२ मत कह कि मैं बुराई का पलटा लुंगा भरन यहोवा की बाट जोहता रह वह तुभ के लुड़ाएगा ॥
- २३ घटती बढ़ती बटखरो से यहोवा धिन करता है और छल का तराजू अन्धका नहीं ॥
- २४ मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से उहराया जाता है
- आदमी क्योंकर अपना चलना समझ सके ॥
- २५ जो मनुष्य बिना बिचारे किसी वस्तु को पवित्र उहराए<sup>१</sup>
- और जा मन्नत मानकर पूछपाछ करने लगे सो फन्दे में फंसेगा ॥
- २६ बुद्धिमान् राजा दुष्टों के आसाकर उड़ा देता और उन पर दावने का पहिया चलवाता है ॥
- २७ मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है वह मन की सब बातों की खोज करता है ॥
- २८ राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उस की गद्दी संभलती है ॥
- २९ जवानों की शोभा उन का बल है पर बूढ़ों की भी उन के पक्के बाल हैं ॥
- ३० चोट लगने से जो घाव हांते हैं सो बुराई दूर करते हैं
- और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है ॥
- २९. राजा** का मन नालियों के जल की नाईं यहोवा के हाथ में रहता है
- जिधर वह चाहता उधर उस को फेरता है ॥

(१) मूल में कहे कि पवित्र वस्तु ।

- मनुष्य का सारा चाल चलन अपने लेखे तो २ ठीक होता है
- पर यहावा मन मन को जांचता है ॥
- धर्म और न्याय करना ३
- यहोवा को बालदान से अधिक अन्धका लगता है ॥
- चढ़ी आखें घमण्डी मन ४
- और दुष्टा की खेतों तीनों पागम्य हैं ॥
- शामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ हाता है ५
- पर उतावली करनेहारे को केवल घटती हांती है ॥
- जो धन भूठ के द्वारा प्राप्त हो ६
- सो वायु से उड़ जानेहारा कुहरा है उस के दूढ़ने-हारे मृत्यु ही को दूढ़ते हैं ॥
- जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उस से उन्हीं का ७
- नाश होता है
- क्योंकि वे न्याय का काम करने से नाह करते हैं ॥
- पाप से लड़े हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा ८
- होता है
- पर जो पवित्र है उस का कर्म सीधा होता है ॥
- लम्बे चौड़े घर में झगड़ालू स्त्रियों के संग रहने से ९
- छत के काने पर रहना उत्तम है ॥
- दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है १०
- वह अपने पड़ेसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता ॥
- जब ठट्टा करनेहारे को दण्ड दिया जाता तब भोला ११
- बुद्धिमान् हो जाता है
- और बुद्धिमान् को जब उपदेश दिया जाता तब १२
- ज्ञान प्राप्त करता है ॥
- इश्वर जो धर्मी है सो दुष्टों के घराने में मन रखता १३
- वह उन को बुराईयों में उलट देता है ॥
- जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे १४
- सो आप पुकारेगा और उस की सुनी न जाएगी ॥
- गुप्त में दो हुई भेंट से कोप ठण्डा होता १५
- और चुपके से दो हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है ॥
- न्याय का काम करना धर्मी को तो आनन्द १६
- पर अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है ॥
- जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए १७
- उस का ठिकाना मरे हुआ के बीच होगा ॥
- जो रागरंग में प्रीति रखता है सो कंगाल १८
- होता है

(२) मूल में आनन्द ।



- और जो दाखमधु पीने और तेल लगाने में प्रीति रखता सो धनी नहीं होता ॥
- १८ दुष्ट जन धर्मी को छुड़ौती ठहरता है और विश्वासघाता सीधे लोगों की सन्ती दण्ड भोगते हैं ॥
- १९ भगड़ाऊ और चिढ़नेहारी ली के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है ॥
- २० बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाये जाते हैं पर मूर्ख उन को उड़ा डालता है ॥
- २१ जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है सो जीवन धर्म और महिमा भी पाता है ॥
- २२ बुद्धिमान शूरवीरो के नगर पर चढ़कर उन क बल को जिस पर व भरोसा करते हैं नाश करता है ॥
- २३ जो अपने मुंह को बश में रखता है सो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है ॥
- २४ जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उस का नाम अभिमानी और अहंकारा ठट्टा करनेहारा पड़ता है ॥
- २५ झालसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उस के हाथ काम करने से नाह करते हैं ॥
- २६ कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है पर धर्मी लगातार दान करता रहता है ॥
- २७ दुष्टों का बलिदान धनीना लगता है विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है ॥
- २८ झूठा साक्षी नाश होता है जिस ने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा ॥
- २९ दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है और जो सीधा है सो अपनी चाल सीधी करता है ॥
- ३० यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ न काई युक्ति चलती है ॥
- ३१ युद्ध के दिन के लिये घोड़ा तैयार तो होता है पर जय यहोवा हाँ से मिलता है ॥

२२. बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है ॥

और सोने चांदी से औं की प्रसन्नता उत्तम है ॥ धनी और निर्धन दोनों मिलते हैं

- यहोवा उन दोनों का कर्ता है ॥
- चतुर मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है ३
- पर भोले लोग आगे बढ़कर दण्ड भोगते हैं ॥
- नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है ॥ ४
- टेढ़े मनुष्य के मार्ग में काटे और फंदे रहते हैं पर जो अपने प्राण की रक्षा करता सो उन से दूर रहता है ॥ ५
- लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस में उस को चलना चाहिये वह बुढ़ापे में भी उस से न हटेगा ॥
- धनी निर्धन लोग पर प्रभुता करता है और उधार लेनेहारा उधार देनेहार का दास होता है ॥ ७
- जो कुटिलता का बीज बोता है सो अनर्थ ही लवेगा ८
- और उस के रोष का सोटा दूटेगा ॥
- दया करनेहारे पर आशय फलती है ९
- क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है ॥
- ठट्टा करनेहारे को निकाल दे तब भगड़ा मिट जाएगा १०
- और बाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे ॥
- जो मन की शुद्धता में प्रीति रखता है ११
- उस के वचन मनोहर होते और राजा उस का मित्र होता है १२
- यहोवा ज्ञाना पर दृष्टि करके उस की रक्षा करता पर विश्वासघाती का बातें उलट देता है ॥ १३
- झालसी कहता है कि बाहर तो संह होगा मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा ॥ १४
- पराई स्त्रियों का मुंह गहिरा गड़हा है जिस से यहोवा क्रोधित होता सोई उस में गिरता है ॥ १५
- लड़के के मन में मूढ़ता बंधी रहती है पर छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उस से दूर की जाती है ॥ १६
- जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अन्धेर करता और जो धनी को भेंट देता वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं ॥ १७
- कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा ॥ १८
- यदि तू उन को अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से भी निकला करें तो यह मनभावनी बात होगी ॥ १९

- १९ मैं आज इसलिये ये बातें तुझ को जता देता हूँ  
कि तेरा भरोसा यहोबा पर हो ॥
- २० मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश  
और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ
- २१ कि मैं तुम्हें सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ  
जिस से जो तुम्हें काम में लगाएँ उन को सच्चा  
उत्तर दे सके ॥
- २२ कंगाल पर इस कारण अन्धेर न करना कि वह  
कंगाल है  
और न दीन जन को कचहरी में पीसना ॥
- २३ क्योंकि यहोबा उन का मुकद्दमा लड़ेगा  
और जो लोग उन का धन हर लेते हैं उन का  
प्राण भी वह हर लेगा ॥
- २४ क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना  
और झूठ कोप करनेहारे के संग न चलना
- २५ कहीं ऐसा न हो कि तू उन की चाल सीखे  
और तेरा प्राण फन्दे में फँस जाए ॥
- २६ जो लोग हाथ पर हाथ मारते  
और ऋणियों के जामिन होते हैं उन में तू न  
होना ॥
- २७ यदि भर देने के लिये तेरे पास कुछ न हो  
तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट ले ॥
- २८ जो सिवाना तेरे पुरखाओं ने बांधा हो  
उस पुराने सिवाने को न बढ़ाना ॥
- २९ तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो  
वह राजाओं के सन्मुख खड़ा होगा छोटे लोगों के  
सन्मुख नहीं ॥

### २३. जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे

- तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे  
साम्हने कौन है ॥
- २ और यदि तू खाऊ हो  
तो थोड़ा खाकर भूखा उठ आना ॥
- ३ उस की स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न  
करना  
क्योंकि वह घोखे का भोजन है ॥
- ४ धनी होने के लिये पारश्रम न करना  
अपनी समझ का भरोसा छोड़ना ॥
- ५ क्या तू अपनी दृष्टि उस पर लगाएगा वह तो है  
ही नहीं

- वह उकाव पक्षी की नाई पंख लगाकर  
निःसन्देह आकाश की ओर उड़ जाता है ॥
- जो डाह से देखता है उस की रोटी न खाना ६  
और न उन की स्वादिष्ट भोजनवस्तुओं की  
लालसा करना ॥
- क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचारता है ७  
वैसा वह आप है
- वह तुझ से कहता तो है कि खा पी  
पर उस का मन तुझ से लगा नहीं ॥
- जो कौर तू ने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा ८  
और तू अपनी भीठी बातों का फल खोएगा ॥
- मूर्ख के साम्हने न बोलना ९  
नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा ॥
- पुराने सिवानों को न बढ़ाना १०  
और न बपुशुओं के खेत में घुसना ॥
- क्योंकि उन का छुड़ानेहारा सामर्थ्य है ११  
उन का मुकद्दमा तेरे संग वही लड़ेगा ।
- अपना हृदय शिक्षा की ओर १२  
और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना ॥
- लड़के की ताड़ना न छोड़ना १३  
क्योंकि यदि तू उस का छड़ी से मारे तो वह न  
मरेगा ॥
- तू उस का छड़ी से मारक १४  
उस का प्राण अधोलोक से बचाएगा ॥
- हे मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान् हो १५  
तो विशेष करके मेरा ही मन आनन्दित होगा ॥
- और जब तू सीधी बातें बोले १६  
तब मेरा मन हुलसेगा ॥
- तू पापियों के विषय मन में डाह न करना १७  
दिन भर यहोबा का भय मानते रहना ॥
- क्योंकि अन्त में फल होगा १८  
और तेरी आशा न टूटेगी ॥
- हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान् हो १९  
और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला ॥
- दाखमधु के पीनेहारों में न होना २०  
न मांस के अधिक खानेहारों की संगति करना ॥
- क्योंकि पियकड़ और खाऊ अपना भाग खोते २१  
और पीनकवाले को चिथड़े पहिनने पड़ते हैं ॥
- अपने जन्मानेहारे की सुनना २२  
और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे  
तुच्छ न जानना ॥

- २३ सखाई को मोल लेना बेचना नहीं  
और बुद्धि और शिक्षा और समझ को मोल  
लेना भी ॥
- २४ धर्मी का पिता बहुत मगन होता  
और बुद्धिमान् का जन्मानेद्वारा उस के कारण  
आनन्दित होता है ॥
- २५ तेरे कारण माता पिता आनन्दित  
और तेरी जननी मगन होए ॥
- २६ हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा  
और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे ॥
- २७ वेश्या गहिरा गहवा ठहरती  
और पराई स्त्री सकेत कूप के समान है ॥
- २८ वह डाकू की नाई घात लगाती  
और बहुत से मनुष्यों के विश्वासघाती कर  
देती है ॥
- २९ कौन कहता है हाय कौन कहता है हाय हाय कौन  
भगड़े रगड़े में फंसता है  
कौन बक बक करता है किस के अकारण घाव  
होते हैं  
किस की आंखें लाल हो जाती हैं ॥
- ३० उन की जो दाखमधु देर तक पीते हैं  
और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु दूढ़ने का  
जाते हैं ॥
- ३१ जब दाखमधु लाल दिखाई देता है  
कटोर में उस का कैसा सुन्दर रंग होता  
जब वह कैसा ठीक उगडेला जाता है तब उस को  
न देखना ॥
- ३२ क्योंकि अन्त में वह सर्प को नाई इसता  
और करैत के समान काटना है ॥
- ३३ तू पराई स्त्रियां देखता  
और उलट फेर की बातें बकता रहेगा ॥
- ३४ और तू समुद्र के बीच लेटनेहारे  
वा मस्तल के सिरे पर सोनेहारे के समान  
रहेगा ॥
- ३५ मैं ने मार तो खाई पर दुःखित न हुआ  
मैं पिट तो गया पर मुझे कुछ सुख न थी  
मैं होरा में कब आऊँ मैं तो फिर मदिरा दूढ़ूँगा ॥

२४. बुरे लोगों के विषय डाह न करना  
और न उन की संगति चाहना ॥

- २ क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं  
और उन के मुंह से उपाधि की बात निकलती है ॥

- घर बुद्धि से बनता  
और समझ के द्वारा स्थिर होता है ॥  
और उस की कोठरियां ज्ञान के द्वारा  
सब प्रकार की अनमोल और मनभाऊ वस्तुओं  
से भर जाती हैं ॥  
बुद्धिमान् पुरुष बलवान् भी होता  
और शानी जन अधिक शक्तिमान् होता है ॥  
इसलिये जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ  
करना  
और जय बहुत सं मन्त्रियों के द्वारा प्राप्त  
होता है ॥  
बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता  
वह सभार में अपना मुंह खोल नहीं सकता ॥  
जा सोच विचार के बुराई करता है  
उस को लोग खल कहते हैं ॥  
मूढ़ता का विचार भी पाप है  
और ठूठा करनेहारे से मनुष्य धिन करते हैं ॥  
क्या तू विपत्ति के समय हियाव छोड़ता है  
तां तेरी शक्ति थोड़ी ही है ॥  
जिन को मार डालने के लिये ले जाते हो उन  
का छुड़ाना  
आर जो घात होने को थरथराते हुए चले जाते  
हां उन्हें रोक लेना ॥  
यदि तू कहे कि भला मैं इस को जानता न था  
तो क्या मन का जांचनेद्वारा इसे नहीं समझता  
और क्या तेरे प्राण का रक्षक इसे नहीं जानता  
और क्या वह एक एक मनुष्य के काम का फल  
उसे न भुगतानेगा ॥  
हे मेरे पुत्र मधु खा कि वह अच्छा है  
और मधु का छत्ता भी कि वह तेरे मुंह में  
मीठा लगेगा ॥  
इसी रीति बुद्धि भी तुम्हें वैसे ही मीठी लगेगी  
यदि तू उस गये तो अन्त में उस का फल भी  
मिलेगा  
और तेरी आशा न टूटेगी ॥  
हे दुष्ट धर्मी का वासस्थान नारा करने को घात  
न लगा  
और उस का विश्रामस्थान मत बिगाड़ ॥  
क्योंकि धर्मी चाहे सात बार गिरे तभी उठता है  
पर दुष्ट लोग विपत्ति में गिरते हैं ॥  
जब तेरा शत्रु गिरे तब तू आनन्दित न हो

- और जब वह छोकर खाए तब तेरा मन मगन  
न हो ॥
- १८ कहीं ऐसा न हो कि यक्षोवा यह देखकर बुरा माने  
और अपना कोप उस पर से उतारे ॥
- १९ कुकर्म्मियों के विषय मत कुछ  
दुष्ट लोगों के विषय डाह न कर ॥
- २० क्योंकि बुरे मनुष्य के अन्त में कुछ फल न  
मिलेगा  
दुष्टों का दिया बुझाया जाएगा ॥
- २१ हे मेरे पुत्र यक्षोवा और राजा दोनों का भय  
मानना  
और बलवा करनेहारों में न मिलना ॥
- २२ क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी  
और दोनों की आपत्ति कौन जानता है ॥
- २३ बुद्धिमानों के वचन ये भी हैं  
न्याय में पक्षपात करना किसी रीति अच्छा नहीं ॥
- २४ जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है  
उस को तो समाज समाज के लोग कासते और  
जाति जाति के लोग धमकी देते हैं ॥
- २५ पर जो लोग दुष्ट को डांटते उन का भला होता  
और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है ॥
- २६ जो सीधे उत्तर देता है  
सो मुननेहार<sup>१</sup> को चूमता है ॥
- २७ अपना बाहर का कामकाज ठीक करना  
और खेत में उसे तैयार कर लेना  
पीछे अपना घर बनाना
- २८ अकारण अपने पड़ोसी के विरुद्ध माली न देना  
और न उस को फुसलाना ॥
- २९ मत कह कि जैसा उस ने मेरे साथ किया वैसा ही  
मैं भी उस के साथ करूंगा  
और उस को उस के काम के अनुसार पलटा  
दूंगा ॥
- ३० मैं आलसी के खेत के  
और निर्बुद्धि मनुष्य की दाखबारी के पास होकर  
जाता था
- ३१ तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़  
भर गये  
और वह बिच्छू पेड़ों से टप गईं  
और उस का पत्थर का बाड़ा गिर गया है ॥
- ३२ तब मैं ने निहारके विचार किया  
मैं ने देखकर शिक्षा प्राप्त की ॥

(१) मूल में हॉठ ।

- तनिक और सो लेना ३३
- तनिक और भयकी ले लेना
- तनिक और छाती पर हाथ रखे<sup>२</sup> लेटे रहना  
तब तरा कंगालपन डाकू की नाई ३४
- और तेरी घटी हाथियारबन्द के समान आ  
पड़ेगी ॥
२५. सुलैमान के नीतिवचन ये भी हैं  
जिन्हें यहूदा के राजा  
हजकिय्याह के जनों ने नकल कर दिया ॥  
परमेश्वर की महिमा तो बात के छिपा रखने में २  
पर राजाओं की महिमा बात के भेद निकालने में  
होती है ॥
- स्वर्ग की ऊंचाई पृथिवी की नीचाई ३  
और राजाओं का मन इन तीनों का अन्त नहीं  
मिलता ॥
- चांदी में से मैल निकाल ४  
तब मुनार के लिये एक पात्र की धकिया हा  
जाएगी ॥
- राजा के साम्हने से दुष्ट को निकाल ५  
तब उस की गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी ॥
- राजा के साम्हने बढ़ाई न मारना ६  
और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना ॥
- क्योंकि जिस प्रधान का तू ने दर्शन किया हो ७  
उस के साम्हने तेरा अपमान होना नहीं ।  
उत्तम यह है कि तुझ से कहा जाए कि यहां पर  
बिराज<sup>३</sup> ॥
- मुकद्दमा उतावली करके न चलाना ८  
नहीं तो उस के अन्त में जब तेरा पड़ोसी तेरा  
मुंह काला करेगा  
तब तू क्या कर सकेगा ॥
- अपने पड़ोसी के साथ वादविवाद एकान्त में ९  
करना  
और पराया भेद न खोलना
- ऐसा न हो कि मुननेहाग तेरी निन्दा करे १०  
और तेरा अपवाद बना रहे ॥
- जैसे चांदी की टोकरियों में सोनह<sup>३</sup> सेब हों ११  
वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है ॥
- जैसे सोने का नत्थ और कुन्दन की गोप १२  
अच्छा लगती हैं

(२) मूल में दोनों हाथ मिलाये ।

(३) मूल में श्वर चढ़ाओ ।

- वैसे ही माननेहारे के कान में बुद्धिमान् की डाट भी अच्छी लगती है ॥
- १३ जैसे कटनी के समय बरफ की ठण्ड से वैसे ही विश्वासयोग्य दूत से भी भजनेहारों का जी ठण्डा होता है ॥
- १४ जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि (नलाभ होते हैं) वैसे हा झूठ मूठ दान देनेहारे का बढ़ाई मारना होता है ॥
- १५ धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता और कामल बात हड्डों का भी तोड़ती है ॥
- १६ यदि तू ने मधु पाया हो तो जितना पचे<sup>२</sup> उतना ही खाना न हा कि अंधक खाकर<sup>२</sup> उसे छाट करना पड़े ॥
- १७ अपने पड़ोसी के घर में बहुत न जाना<sup>३</sup> न हो कि वह तुझ से अघाकर<sup>३</sup> बैर करने लगे ॥
- १८ जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षात् देता है सो मानो हथोड़ा और तलवार और पैना तीर होता है ॥
- १९ विपत्ति के समय विश्वासघाती पर का भरोसा टूटे हुए दांत वा उखड़े पांव के समान होता है ॥
- २० जैसा जाड़े के दिनों में किसी का बख उतारना वा सजी पर सिरका डालना वैसे ही उदास मनवाले के साम्हने गीत गाना होता है ।
- २१ यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उस का रोटा खिलाना और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी मिलाना ॥
- २२ क्योंकि इस रीति तू उस के सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इस का फल देगा ॥
- २३ जैसे उत्तरीय वायु वर्षा का वैसे ही चुगली करने<sup>४</sup> से मुख पर क्रोध छा जाता है ॥
- २४ लम्बे चौड़े घर में भगड़ालू स्त्री के संग रहने से छूत के काने पर रहना उचित है ॥
- २५ जैसा थके मान्दे के लिये ठण्डा पानी वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है ॥
- २६ जो धर्मी दुष्ट के कहे में आता है

सो गदले सोते और बिगड़े हुए कुचक के समान है ॥

बूत मधु खाना अच्छा नहीं पर कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होती है ॥

जिस का आत्मा बश में नहीं सो ऐसे नगर के समान है जिस की शहरपनाह नाका करके तोड़ दी गई हो ॥

२६. जैसा धूपकाल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना

वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती । जैसे गौरिया घूमते घूमते और सुपावेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती

वैसे ही अकारण साप नहीं पड़ता ॥ घोड़े के लिये कोड़ा गदहे के लिये बाग और मूर्खों की पीठ के लिये छड़ी ॥

मूर्ख वा उस की मूढ़ता के अनुसार उत्तर न देना ऐसा न हा कि तू भी उस के तुल्य ठहरे ॥

मूर्ख को उस की मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना ऐसा न हा कि वह अपने लेखे बुद्धिमान् ठहरे ॥

जो मूर्ख के हाथ से सन्देहा भेजता है सो मानो अपने पांव में कुल्हाड़ा मारता और विष<sup>५</sup> पीता है

जैसे लंगड़े के पांव लटके हुए बहते वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीतिवचन होता है ॥

जैसी पत्थरों के ढेर में मणियों की पैली वैसे ही मूर्ख का महिमा देनी होती है ॥

जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीतिवचन भी दुःखदाई होता है

जैसा कोई तीरन्दाज जो अकारण सब को मारता हो वैसे ही मूर्खों वा बटोहियों का मजूरी में लगाने

हाथ भी होता है ॥

जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता<sup>६</sup> है वैसे ही मूर्ख अपनी मूढ़ता को दुहरता है ॥

यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपने लेखे बुद्धिमान् हो

तो उस से अधिक मूर्ख ही की आशा है ॥ आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह होगा

(१) मूल में जितनी चाहिये । (२) मूल में अघाकर ।  
(३) मूल में घर से अपना पांव बहुतूल्य करना ।  
(४) मूल में क्षिपी जीम ।

(५) मूल में उपद्रव ।  
(६) मूल में छांट की ओर फिरता ।

- चौक में सिंह होगा ॥
- १४ जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है  
वैसे आलसी अपनी खाट पर करबट लेता है ॥
- १५ आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता  
पर आलस्य के मारे कौर मुंह तक नहीं उठाता ॥
- १६ ठीक उत्तर देनेहारे सात मनुष्यों से भी  
आलसी अपने को अधिक बुद्धिमान् समझता है ॥
- १७ जो मार्ग पर चलते हुए पराये भगड़े में रिसि-  
याता है  
सा ऐसा होता है जैसा कोई कुत्ते के कानों को  
पकड़े ॥
- १८ जैसा कोई पागल जो लुकटियां  
तीर क्या बरन मृत्यु ही को फेंकता हो  
१९ वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ेसी को  
घोखा देकर  
कहता है क्या मैं खेल ही न करता था ॥
- २० जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है  
उसी रीति जहां कानाफूसी करनेहारा नहीं वहां  
भगड़ा मिट जाता है ॥
- २१ जैसा अंगारों में कोएला और आग में लकड़ी  
होती है  
वैसा ही भगड़े के बढ़ाने के लिये भगड़ातू  
होता है ॥
- २२ कानाफूसी करनेहारे के वचन  
स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं ॥
- २३ जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का  
वर्तन हो  
वैसा ही बुरे मनवाले के प्रेम भरे वचन<sup>१</sup> होते हैं ॥
- २४ जो बैरी बात से तो अपने को अनजान बनाता  
पर अपने भीतर छल रखता है  
२५ जब वह मीठी बातें बोलें तब उस की प्रतीति न  
करना  
क्योंकि उस के मन में सात धिनौनी वस्तुएं रहती  
हैं ॥
- २६ चाहे उस का बैर छल के कारण छिप भी जाए  
तौभी उस की बुराई सभा के बीच प्रगट हो  
जाएगी ॥
- २७ जो गड़हा खोदे सो उस में गिरेगा  
और जो पत्थर लुढ़काए वह उस पर लुढ़क  
आएगा ॥

जिस ने जिस को झूठी बातों से चायल किया हो सो २८  
उस से बैर रखता है  
और चिकनी चुपड़ी बात बोलनेहारा विनाश का  
कारण होता है ॥

२७. कल के दिन के विषय मत फूल  
क्योंकि तू नहीं जानता कि  
दिन भर में क्या होगा ॥

- तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें पर तू आप न १  
करना  
धिराना तुझे सराहे तो सराहे पर तू अपनी  
सराहना न करना ॥
- पत्थर तो भारी और बात गुरु होती है ३  
पर मूढ़ की रिस उन दोनों से भी भारी है ॥
- क्रोध तो क्रूर और कोप धारा के समान ४  
होता है  
पर जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर  
सकता है ॥
- साफ साफ डांट ५  
छिपे हुए प्रेम से उत्तम है ॥
- मित्र की चोटें विश्वासयोग्य हैं ६  
पर बैरी बहुत चूमता है ॥
- अधाने पर मधु का छत्ता फीका लगता है<sup>२</sup> ७  
पर भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान  
पड़ती हैं ॥
- स्थान छोड़कर घूमनेहारा मनुष्य उस चिढ़िया ८  
के समान है  
जो धौंसला छोड़कर उड़ती फिरती है ॥
- जैसे तेल और सुगन्ध से ९  
वैसे मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन  
आनन्दित होता है ॥
- जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न १०  
छोड़ना  
और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर  
न जाना  
क्योंकि प्रेम करनेहारा पड़ेसी प्रेम न करनेहारे  
भाई से कहीं उत्तम है ॥
- हे मेरे पुत्र बुद्धिमान् होकर मेरा मन आनन्दित ११  
कर  
और मैं अपने निन्दा करनेहारे को उत्तर दे  
सकंगा ॥

(१) मूल में जले हुये होंठ ।

(२) मूल में तूत जीव छत्ता रौंदता है ।

- १२ चक्र मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है  
पर भोजे लोग आगे बढ़कर दरह भोगते हैं ॥
- १३ जो अनजाने पुरुष का जामिन हुआ उस का कपड़ा  
और जो अनजानी स्त्री का जामिन हुआ उस से बन्धक की वस्तु ले रख ॥
- १४ जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी के ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता  
उस के लिये यह स्नाप गिना जाता है ॥
- १५ झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना  
और झगड़ालू स्त्री दोनों तुल्य हैं
- १६ जो उस का रोक रखे सो वायु को भी रोक रखेगा  
और दड़िने हाथ से वह तेल पकड़ेगा ॥  
जैसे लोहा लोहे से चमकदार होता है  
वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार होता है ॥
- १८ जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता सो उस का फल खाता है  
इस रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उस की महिमा होती है ॥
- १९ जैसे जल में मुख की परछाईं मुख से मिलती है  
वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है ॥
- २० जैसे अधोलोक और विनाशलोक  
वैसे ही मनुष्य की आखें भी तृप्त नहीं होती ॥
- २१ जैसे चान्दी ताम्बे के पात्र में और सोना घड़िया में  
ताया जाता है  
वैसे ही मनुष्य प्रशंसा करने से ।  
चाहे तू मूढ़ को दानों के बीच दलकर ओखली में मूसल से कूटे  
तौभी उस की मूढ़ता नहीं जाने की ॥
- २३ अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति बूझ लेना और अपने सब पशुओं के भुण्डों की सुधि रखना ॥
- २४ क्योंकि संगति सदा लो नहीं ठहरती  
और न्या राजपुकुट भी पीढ़ी पीढ़ी बना रहता है ॥
- २५ कटी हुई घास उठ गई नई घास दिखाई दी  
पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्टी की गई ॥
- २६ भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिये हैं  
और बकरों के द्वारा खेत का देन दिया जाएगा

और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने २७ बराने समेत पेट भरके पिया करेगा  
और तेरी लौण्डियों की भी जीविका होगी ॥

२८ दुष्ट लोग जब कोई पीड़ा नहीं करता  
तब भी भागते हैं

पर धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं ॥

देश में पाप होने के कारण उस के हाकिम बदलते जाते हैं

पर समझनेहारे और शानी मनुष्य के द्वारा सुदशा बहुत दिन लो ठहरती है ॥

जो निधन पुरुष कंगालों पर अन्धे करता है  
सो ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजनवस्तु नहीं छोड़ती ॥

जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते सो दुष्ट की प्रशंसा करते हैं

पर व्यवस्था के पालनेहारे उन से लड़ते हैं ॥

बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते  
पर यहोवा के दूढ़नेहारे सब कुछ समझते हैं ॥

टेढ़ी चाल चलनेहारे धनी मनुष्य से खराई से चलनेहारा निधन ही जन उत्तम है ॥

जो व्यवस्था को पालता सो समझवाला सुपूत होता है

पर खाउओं का सगी अपने पिता का मुंह काला करता है ॥

जो अपना धन व्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है  
वह उस के लिये बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है ॥

जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है  
उस की प्राथना धिनौनी ठहरती है ॥

जो सीधे लाला का भटकाकर कुमांग में कर देता  
सो अपने खादे हुए गड़हे में आर गिरता है

पर खर लोग कल्याण के भागी होते हैं ॥  
धनी पुरुष अपने लेखे बुद्धिमान् हाता है

पर समझदार कंगाल उस का मर्म बूझ लेता है ॥

जब धर्मी लोग दुलक्षते हैं तब बड़ी शोभा होती है  
पर जब दुष्ट लोग प्रबल होत हैं तब मनुष्य अपने आप को झिगता है १

जो अपने अपराध छिपा रखता उस का काय्य सुफल नहीं होता

१३ सुफल नहीं होता

(१) मूल में मनुष्य झूठे जाते ।

- पर जो उन को मान लेता और छोड़ भी देता  
उस पर दया की जाती है ॥
- १४ जो मनुष्य निरन्तर भय मानता रहता है सो धन्य है  
पर जो अपना मन कठोर कर लेता सो विपत्ति  
में पड़ता है ॥
- १५ कंगाल प्रजा पर प्रभुता करनेद्वारा दुष्ट  
गरजनेहारे सिंह और घूमनेहार रीछ के  
समान है ॥
- १६ जो प्रधान मन्दबुद्धि होता है सोई बहुत अंधेर  
करता है  
और जो लालच का बैरी होता सो दीर्घायु  
होता है ॥
- १७ जो किसी प्राणी के खून का अपराधी हो  
वह भागकर गड़हे में गिरेगा कोई उस को न  
रोकेगा ॥
- १८ जो सीधेई से चलता सो बचाया जाता है  
पर जो टेढ़ी चाल चलता सो अचानक गिर  
पड़ता है ॥
- १९ जो अपनी भूमि को जोता बोया करता उस का तो  
पेट भरता है  
पर जो निकम्मे लोगों की संगति करता सो कंगाल-  
पन से घिरा रहता है ॥
- २० सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं  
पर जो धनी होने में उतावली करता है सो निर्दोष  
नहीं ठहरता ॥
- २१ पक्षपात करना अच्छा नहीं  
और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक डुकड़े रोटी  
के लिये अपराध करे ॥
- २२ जो डाह करता है वह धन प्राप्त करने में उतावली  
करता है  
और नहीं जानता कि मैं घटी में पड़ूंगा ॥
- २३ जो किसी मनुष्य को डांटता है सो पीछे  
चापलूसी करनेहारे से अधिक प्यारा हो जाता है ॥
- २४ जो अपने मा बाप को लूटकर कहता है कि कुछ  
अपराध नहीं  
सो नाश करनेहारे का संगी ठहरता है ॥
- २५ लालची मनुष्य भगड़ा मचाता है  
और जो यहोवा पर भरोसा रखता सो दृष्टपुष्ट हो  
जाता है ॥
- २६ जो अपने ऊपर भरोसा रखता है सो मूर्ख है  
और जो बुद्धि से चलता है सो बचता है ॥

(१) मूल में अघाता ।

- जो निर्धन को दान देता उस का घटी नहीं होती २७  
पर जो उस से दृष्टि फेर लेता सो साप पर साप  
पाता है ॥
- जब दुष्ट लोग प्रबल<sup>२</sup> होते तब तो मनुष्य छिप २८  
जाते हैं
- पर जब वे नाश होते तब धर्मी लोग बहुत होते हैं ॥
- २९. जो** बार बार डांटे जाने पर भी हठ  
करता है  
सो अचानक नाश होगा और कुछ उपाय न  
चलेगा ॥
- जब धर्मी लोग बहुत होते तब राजा आनन्दित २  
होता है
- पर जब दुष्ट प्रभुता करता तब प्रजा हाय  
मारती है ॥
- जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता उस का पिता ३  
आनन्दित होता है
- पर बेरयाओं की संगति करनेहारा धन को खो  
देता है ॥
- राजा न्याय करने से देश को स्थिर करता है ४  
पर जो बहुत मेंटें लेता सो उस को उलट देता है ॥
- जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बात करता है ५  
सो उस के पैर के लिये जाल लगाता है ॥
- बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है ६
- पर धर्मी आनन्दित होकर जयजयकार करता है ॥
- धर्मी पुरुष कंगालों के मुकद्दमे में मन लगाता है ७  
पर दुष्ट जन उसे जानने को समझ नहीं रखता ॥
- ठगानेहारे लोग नगर को फुंक देते हैं ८
- पर बुद्धिमान लोग कोप को दण्डा करते हैं ॥
- जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ बादविवाद करता ९  
तब चाहे वह रोष करे चाहे इसे लौभी चैन नहीं  
मिलता ॥
- हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं १०  
और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं ॥
- मूर्ख अपने सारे मन की बात प्रगट करता है ११  
पर बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शान्त  
कर देता है ॥
- जब हाकिम झूठी बात की आर कान लगाता है १२  
तब उस के सब टहलुए दुष्ट हो जाते हैं ॥
- निधन और अन्धेर करनेहारा पुरुष इस में एक १३  
समान है

(२) मूल में छिपाता ।

(३) मूल में खड़े ।



- कि यहीवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है ॥
- १४ जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता उस की गद्दी सदा लों स्थिर रहती है ॥
- १५ छुड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है पर जो लड़का योही छोड़ा जाता सो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है ॥
- १६ दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है पर अन्त में धर्मी लोग उन का गिरना देख लेते हैं ॥
- १७ अपने बेटे की ताड़ना कर तब उस से तुम्हें चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा ॥
- १८ जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है सो धन्य होता है ॥
- १९ दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता ॥
- २० तू बातें करने में उतावली करनेहारे मनुष्य को देखता है उस से अधिक मूर्ख ही से आशा है ॥
- २१ जो अपने दास को उस के लड़कपन से सुकुमारपन में पालता वह दास अन्त में उस का बेटा बन बैठता है ॥
- २२ कोप करनेहारा मनुष्य भगड़ा मचाता है और अत्यन्त कोप करनेहारा अपराधी भी होता है ॥
- २३ मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है पर नम्र आत्मावाला महिमा का अधिकारी होता है ॥
- २४ जो चोर की संगति करता सो अपने प्राण का बैरी होता है सोह धराने पर भी वह बात को प्रगट नहीं करता ॥
- २५ मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है पर जो यहीवा पर भरोसा रखता सो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है ॥
- २६ हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं पर मनुष्य का चुकाव यहीवा ही से मिलता है ॥
- २७ धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घिन करते हैं

और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलनेहारे से घिन करता है ॥

### ३०. याके के पुत्र आगूर के वचन ।

मारी वचन ।

- उस पुरुष की ईंतीएल और उकाल से यह वाणी है कि
- निश्चय मैं पशु सरीखा हूं वरन मनुष्य २  
कहलाने के योग्य नहीं
- और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है ॥
- और न मैं ने बुद्धि प्राप्त की है ३
- न परमपवित्र का ज्ञान मुझे मिला है ॥
- कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया ४
- किस ने वायु को अपनी मुट्ठी में बंदोर रक्खा है
- किस ने महासागर को अपने बख में बन्ध लिया है
- किस ने पृथिवी के सिवानों को ठहराया है
- उस का नाम क्या है और उस के पुत्र का नाम क्या है यदि तू जानता हो तो बता ॥
- ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है ५
- वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है ॥
- उस के वचनों में कुछ मत बढ़ा ६
- ऐसा न हो कि यह तुम्हें डांटे और तू झूठा ठहरे ॥
- मैं ने तुम्ह से दो वर मांगे हैं ७
- सो मेरे मरने से पहिले उन्हें नाह न करना
- अर्थात् व्यर्थ और झूठी बात मुझ से दूर रख
- मुझे न निर्धन कर न धनी
- मेरी दिन दिन की रोटी मुझे खिलाया कर
- ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भरे तब मैं ९
- तुम्ह से मुकरके कहूं कि यहीवा कौन है
- वा अपना भाग खोकर चोरी करूं
- और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं ॥
- किसी दास की उस के स्वामी से चुगली न १०
- खाना
- न हो कि वह तुम्हें खाप दे और तू दोषी ठहराया जाए ॥
- ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को कोसते ११
- और अपनी माता को धन्य नहीं कहते ॥
- ऐसे लोग हैं जो अपने लेखे शुद्ध हैं १२
- पर तौभी उन का मेल धोया नहीं गया ॥
- ऐसे लोग हैं जिन की दृष्टि क्या ही धमएड भरी है १३
- और उन की आंखें क्या ही चढ़ी हुई हैं ॥

- १४ ऐसे लोग हैं जिन के दांत तलवार और  
उन की दाढ़ें छुरियां ठहरती हैं  
वे दीन लोगों को पृथिवी पर से और दरिद्रों को  
मनुष्यों में से खाकर मिटा डालें ॥
- १५ जैसे जोक की दो बेटियां होती हैं जो कहती हैं  
दे दे  
वैसे ही तीन वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होतीं  
बरन चार हैं जो कभी नहीं कहती बस ॥
- १६ अधोलोक और बांभू की कोख  
भूमि जो जल पी पीकर तृप्त नहीं होती  
और आग जो कभी नहीं कहती बस ॥
- १७ जिस आंख से कोई अपने पिता पर  
अनादर की दृष्टि करे  
और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा  
न माने  
उस आंख को तराई के कीवे खोद खोदकर  
निकालेंगे  
और उकाब के बच्चे खा डालेंगे ॥
- १८ तीन बातें मेरे लिये अधिक कठिन हैं  
बरन चार हैं जो मेरी समझ से परे हैं
- १९ आकाश में उकाब पक्षी का ढंग  
चटान पर सर्प की चाल  
समुद्र में जहाज की चाल  
कन्या के संग पुरुष की चाल ॥
- २० व्यामचारिन स्त्री की चाल भी वैसी ही है  
वह भोजन करके मुंह पोंडूती  
और कहती है कि मैं ने कोई अनर्थ काम  
नहीं किया ॥
- २१ तीन बातों के कारण पृथिवी कांपती  
बरन चार हैं जो उस से नहीं नहीं जातीं
- २२ दास का राजा हो जाना  
मूढ़ का पेट भरना
- २३ धिनौनी स्त्री का ब्याह जाना  
और दासी का अपनी स्वामिन की वारिस  
होना ॥
- २४ पृथिवी पर चार छोटे जन्तु हैं  
जो अत्यन्त बुद्धिमान हैं ॥
- २५ च्युटियां निर्बल जाति तो हैं  
पर धूपकाल में अपनी भोजनवस्तु बटोरती हैं ॥
- २६ शायान बली जाति नहीं  
तौभी उन की मान्दे दांगों पर हांती हैं ॥
- २७ टिड्डियों के राजा तो नहीं होता

- तौभी वे सब की सब दल बांध बांधकर पयान  
करती हैं ॥
- और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है २८  
तौभी राजभवनों में रहती हैं ॥
- तीन सुन्दर चलनेहारे प्राणी हैं २९  
बरन चार हैं जिन की चाल सुन्दर है  
सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है ३०  
और किसी के डर से नहीं हटता  
शिकारी कुत्ता और बकरा ३१  
और अपनी सेना समेत राजा ॥  
यदि तू ने अपनी बड़ाई करने से मूढ़ता की  
बा कोई बुरी युक्ति बांधी हां ३२  
तो अपने मुंह पर हाथ धर ॥  
क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन ३३  
और नाक के मरोड़ने से लोहू निकलता है  
वैसे ही कोप के भड़काने से भगड़ा उत्पन्न  
होता है ॥

### ३१. लसूपल राजा के वचन ।

- वह भारी वचन जो उस की माता ने उसे चिताया ॥  
हे मेरे पुत्र क्या, हे मरे निज बेटे क्या, २  
हे मेरी मज्जतों के पुत्र क्या कहूं ॥  
अपना बल स्त्रियों को न देना ३  
न अपना जीवन उन के वश कर देना  
जो राजाओं का पौरुष खो देती हैं ॥  
हे लसूपल राजाओं को दाखमधु पीना यह राजाओं ४  
को उचित नहीं  
और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फलता  
न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूलें ५  
और किसी दुःखी के मुकद्दमा को बिगाड़ें ॥  
मदिरा नाश होनेहारे को ६  
और दाखमधु उदास मनवालों ही को देना ॥  
ऐसा मनुष्य पीकर अपना कर्णालपन भूले ७  
और अपना कठिन श्रम फिर स्मरण न करे ॥  
अनबोल के लिये बोलना ८  
और सब अनाथों का न्याय चुकाना ॥  
मुंह खोलना और धर्म से न्याय करना ९  
और दीन दरिद्रों का मुकद्दमा लड़ना ॥  
मत्ती स्त्री कौन पा सकता है १०  
उस का मूल्य मूंगों से बहुत अधिक है ॥  
उस के पति का मन उस पर भरोसा रखता है  
और उस पति को लाभ की चटी नहीं होती ॥ ११

- १२ अपने जीवन के सारे दिन  
वह उस से बुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है ॥
- १३ वह ऊन और सन ढूँढ़ ढूँढ़ कर  
अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है ॥
- १४ वह व्यापार के जहाजों की नाह  
अपनी भोजन वस्तुएँ दूर से मंगवाती है ॥
- १५ वह रात रहते उठकर  
अपने घराने को भोजन  
और अपनी लौण्डियों को अलग अलग काम  
देती है ॥
- १६ वह खेत सोच विचारकर लेती  
और अपनी कमाई से दाख की बारी लगाती है ॥
- १७ वह अपनी कटि में बल का फेंटा कसती  
और अपनी बाँहों को बली करती है ॥
- १८ वह परख कर लेती है कि मेरा बनिज अच्छा  
चलता है  
और रात को उस का दिया नहीं बुझता ॥
- १९ वह अटेरन में हाथ लगाती  
और चरखा पकड़ती है ॥
- २० वह दीन के लिये मुट्टी खोलती  
और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है ॥
- २१ वह अपने घराने के लिये हिम से नहीं डरती  
क्योंकि उस के घर के सब लोग लाल कपड़े पहि-  
नते हैं ॥
- २२ वह तकिये बना लेती है  
उस के वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं ॥

- जब उस का पति सभा<sup>१</sup> में देश के पुरनियों के संग २३  
बैठता है  
तब उस का सम्मान होता है ॥  
वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती २४  
और व्यापारी को फेंटे देती है ॥  
वह बल और प्रताप का पहिरावा पहिने रहती २५  
और आनेहार के काल के विषय पर हँसती है ॥  
वह बुद्धि की बात बोलती है २६  
और उस क वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार  
होते हैं ॥  
वह अपने घराने के चाल चलन के ध्यान से २७  
देखती  
और अग्नी राटी बिना कमाये नहीं खाती ॥  
उस के पुत्र उठ उठकर उस को धन्य कहते हैं २८  
उस का पति भी उठकर उस की ऐसी प्रशंसा करता  
है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो २९  
किये हैं पर तू उन सभी से श्रेष्ठ ठहरी ॥  
शोभा तो झूठी और सुन्दरता बुलबुला<sup>२</sup> है ३०  
पर जो स्त्री यद्दोबा का भय मानती है उस की प्रशंसा  
की जाएगी ॥  
उस के हाथों के काम का फल उसे दो ३१  
और वह सभा में अपने कामों के योग्य प्रशंसा  
पाये<sup>३</sup> ॥

(१) मूल में फाटकों । (२) मूल में साँस । (३) मूल में उस के काम  
फाटकों में उस को खुश करे ।

## सभोपदेशक ।

१. सभा का उपदेशक जो दाऊद का पुत्र और  
यरूशलेम का राजा था उस के वचन ।  
२ सभा के उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही  
३ व्यर्थ व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है । उस सब परिश्रम  
से जिसे मनुष्य धरती पर<sup>१</sup> करता है उस को क्या लाभ  
४ होता है । एक पीढ़ी जाती और दूसरी पीढ़ी आती है  
५ और पृथिवी सदा लीं बनी रहती है । फिर सूर्य उदय

(१) मूल में सूरज के नीचे ।

होकर अस्त होता है और अपने उदय की दिशा को वेग  
से जाता है । वायु दक्षिण की ओर बहती और उत्तर ५  
की ओर घूमती आती है वह घूमती बढ़ती रहती और  
अपन चक्करों में लौट आती है । सारी नदियां समुद्र में ७  
जा मिलती हैं तौभी समुद्र भर नहीं जाता जिस स्थान  
में नदियां जाती हैं उसी में वे फिर जाती हैं । सब बातें ८  
परिश्रम से भरी हैं इस का वर्णन किया नहीं जाता न  
तो आखे देखते देखते सफल हावी हैं न कान सुनते  
सुनते दृप्त । जो कुछ हुआ था वही होगा और जो कुछ ९

किया गया वही किया जाएगा धरती पर? कोई नई  
 १० बात नहीं होती। क्या ऐसी कोई बात है जिस के विषय  
 लंग कह सकें कि देख यह नई है सो नहीं वह बाते  
 ११ हुए युगों में ही चुकी है। प्राचीन लोगों का कुछ  
 स्मरण नहीं रहा और होनेहारे लोगों का कुछ स्मरण  
 उन के पीछे होनेहारों का न रहेगा ॥

मैं सभा का उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल का  
 १२ राजा हुआ। और मैं ने मन लगाया कि जो कुछ धरती  
 १३ पर किया जाता है उस का भेद बुद्धि से सोच सोचकर  
 निकाखू यह बड़े दुःख का काम है जो परमेश्वर ने  
 १४ मनुष्यों के लिये ठहराया है कि वे उस में लगे रहें। मैं ने  
 उन सब कामों को देखा जो धरती पर किये जाते हैं  
 १५ देखो वे सब व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा  
 है सो सीधा नहीं हो सकता और जितनी वस्तुओं में घटी  
 १६ है वे गिनी नहीं जाती। मैं ने मन में कहा कि देख  
 जितने यरूशलेम में मुझ से पहिले वे उन सभों से मैं  
 ने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की और मुझ को बहुत  
 १७ बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। और मैं ने मन  
 लगाया कि बुद्धि का भेद लूँ और बावलोपन और  
 मूर्खता को भी जान लूँ पर मुझे जान पड़ा कि यह भी  
 १८ वायु को पकड़ना है। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत  
 खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता वह अपना  
 दुःख भी बढ़ाता ॥

**२. मैं** ने अपने मन से कहा चल मैं तुम्हें  
 आनन्द के द्वारा जांचूंगा सो सुख  
 २ मन पर देखो यह भी व्यर्थ है। मैं ने हंसी के विषय  
 कहा यह तो बावलोपन है और आनन्द के विषय कि  
 ३ उस से क्या होता है। मैं ने मन में सोचा कि किस  
 प्रकार से मेरी बुद्धि भी बनी रह और मैं अपने जी को  
 दाखमधु पाने से ऐसा बहल भी दूँ कि मूर्खता को  
 पकड़े रहूँ जब लो न देखूँ कि वह अच्छा काम कौन है  
 ४ जो मनुष्य अपने जीवन भर करते रहें। मैं ने बड़े बड़े  
 काम किये मैं ने अपने लिये घर बनवा लिये मैं ने  
 ५ अपने लिये दाख की बारियाँ लगवा लीं, मैं ने अपने  
 लिये बारियाँ और बाग लगवा लिये और उन में भांति  
 ६ भांति के फलदाई वृक्ष रुपवाये, मैं ने अपने लिये कुरइ  
 खुदवा लिये कि उन से वह बन सींचा जाए जिस में पौधे  
 ७ संये जाते थे। मैं ने दास और दासियाँ मोल लीं  
 और मेरे घर में दास उरख भी हुए मेरे इतनी

(१) मूल में सरज के नीचे ।

गाय बैल और भेड़ बकरियाँ हुईं जितनी मुझ से पहिले  
 किसी यरूशलेमवासी के न हुई थीं। मैं ने  
 चान्दा और सोना भी और राजाओं और प्रान्तों के  
 बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह किया, मैं ने अपने लिये  
 गानेहारों और गानेहारियों को रक्खा और बहुत  
 सी कामिनियाँ भी जिन से मनुष्य सुख पाते हैं  
 अपनी कर लीं। सो मैं अपने से पहले के सब  
 यरूशलेमवासियों से अधिक बढ़ा और धनाढ्य हो  
 गया तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रहा। और जितनी  
 वस्तुओं के देखने की मुझे लालसा हुई उन सभों को  
 देखने से मैं न रुका मैं ने अपना मन किसी प्रकार का  
 आनन्द भोगने से न रोका वरन मेरा मन मेरे सब  
 परिभ्रम के कारण आनन्दित हुआ और मेरे सब  
 परिभ्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैं ने फिरके  
 अपने हाथों के सब कामों का और अपने सब परिभ्रम  
 को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को  
 पकड़ना है और धरती पर कुछ लाभ नहीं  
 होता ॥

फिर मैं ने अपना मन फेरा कि बुद्धि और  
 बावलोपन और मूर्खता को देखूँ क्योंकि जो मनुष्य  
 राजा के पीछे आए सो क्या कर सकेगा केवल वही  
 जो लोग कर चुके हैं। तब मैं ने देखा कि उजियाला  
 अधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता  
 से उत्तम है। जो बुद्धिमान् है उस के सिर में आखें  
 रहती हैं पर मूर्ख अधियारे में चलता है तौभी मैं ने  
 जान लिया कि दोनों की एक सी दशा होती है। सो  
 मैं ने मन में कहा जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसी  
 ही मेरी भी होगी फिर मैं क्या अधिक बुद्धिमान् हुआ  
 तब मैं ने मन में कहा यह भी व्यर्थ ही है।  
 क्योंकि बुद्धिमान् और मूर्ख दोनों सदा तो बिसरे  
 रहेंगे क्योंकि आनेहारे दिन में सब कुछ बिसर जाएगा  
 इस रीति बुद्धिमान् का मरना मूर्ख ही का सा ठहरता  
 है। तब मैं ने अपने जीवन से घिन की क्योंकि जो  
 काम धरती पर किया जाता है सो मुझें बुरा  
 है। लगा क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पक-  
 डना है ॥

और मैं ने अपने सारे परिभ्रम से जो मैं ने  
 धरती पर किया था घिन की क्योंकि मुझे उस  
 का फल किसी मनुष्य के लिये जो मेरे पीछे आएगा  
 छोड़ जाना पड़ेगा। और वह मनुष्य बुद्धिमान् होगा  
 वा मूर्ख यह कौन जानता है तौ भी जितना परिभ्रम  
 मैं ने किया और उस में धरती पर बुद्धि प्रगट की

उस के फल का वही अधिकारी होगा यह भी व्यर्थ  
 २० ही है। सो मैं पलटकर उस सारे परिश्रम के विषय  
 जो मैं ने धरती पर<sup>१</sup> किया था निराश होने पर  
 २१ हुआ। क्योंकि कोई ऐसा मनुष्य होता है जिस का  
 परिश्रम बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी  
 होता है तो भी उस को ऐसे मनुष्य के लिये जिस ने  
 उस में कुछ परिश्रम न किया हो छोड़ जाना पड़ता है  
 कि उसी का भाग हो जाए यह भी व्यर्थ और बहुत ही  
 २२ बुरा है। क्योंकि मनुष्य जो परिश्रम धरती पर<sup>१</sup> मन  
 लगा लगाकर करता है उस से उस को क्या लाभ होता  
 २३ है। उस के सारे दिन तो दुःखों से भरे रहते और उस  
 का काम खेद के साथ होता है बरन रात को भी उस का  
 मन चैन नहीं पाता यह भी व्यर्थ है ॥

२४ मनुष्य के लिये खाने पीने और परिश्रम करते हुये  
 अपने जीव को सुख भुगाने से बढ़कर और कुछ अच्छा  
 नहीं मैं ने इस को भी देखा कि यह परमेश्वर की ओर  
 २५ से मिलता है। क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में  
 २६ मुझ से कौन अधिक समर्थ है। जो मनुष्य परमेश्वर के  
 लेखे में अच्छा है उस को वह बुद्धि और ज्ञान और  
 आनन्द देता है पर पापी को वह दुःखभरा काम ही  
 देता कि वह उस को देने के लिये संचय कर करके ढेर  
 लगाये जो परमेश्वर के लेखे में अच्छा हो यह भी व्यर्थ  
 और वायु को पकड़ना है ॥

### ३. एक एक बात का अन्तर और धरती पर<sup>१</sup>

जितने विषय होते हैं सब का  
 २ एक एक समय होता है। जन्म का समय और मरन  
 का भी समय रोपने का समय और रोपे हुए को उखाड़ने  
 ३ का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने  
 का भी समय ढा देने का समय और बनाने का भी समय  
 ४ है। रोने का समय और हंसने का भी समय छाती  
 ५ पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर  
 फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय गले  
 लगाने का समय और गले लगाने से दकने का भी  
 ६ समय है। दूँदने का समय और लो देने का भी समय  
 बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है।  
 ७ फाड़ने का समय और सीने का भी समय चुप रहने का  
 ८ समय और बोलने का भी समय है। प्रेम करने का  
 समय और बैर करने का भी समय लड़ाई का समय और  
 ९ मेल का भी समय है। काम करनेहारे को अपने परिश्रम  
 १० से क्या लाभ होता है। मैं ने उस दुःखभरे काम को

देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिये ठहराया है कि  
 वे उस में लगे रहें। उस ने सब कुछ ऐसा बनाया कि ११  
 अपने अपने समय पर वे सुन्दर होते हैं फिर उस ने  
 मनुष्यों के मन में अनादि अनन्त काल का ज्ञान उत्पन्न  
 किया है तोभी जो काम परमेश्वर ने किया है सो मनुष्य  
 आदि से अन्त लों बूझ नहीं सकता। मैं ने जान लिया १२  
 कि मनुष्यों के लिये आनन्द करने और जीवन भर  
 भलाई करने को छोड़ और कुछ अच्छा नहीं। और फिर १३  
 यह परमेश्वर का दान है कि सब मनुष्य खाएँ पीएँ और  
 अपने अपने सब परिश्रम में सुख मानें। मैं ने यह भी १४  
 जान लिया कि जो कुछ परमेश्वर करे सो सदा लों ठहरेगा  
 न तो उस में कुछ बढ़ाया जाता है न कुछ घटाया जाता  
 और परमेश्वर इसलिये ऐसा करता है कि लोग उस का  
 भय मानें। जो हुआ सो उस से पहिले भी हो चुका १५  
 या और जो होनेहारा है सो हो भों चुका है और परमेश्वर  
 बीती हुई बात को पूछता है ॥

फिर मैं ने धरती पर<sup>१</sup> क्या देखा कि न्याय के १६  
 स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी  
 दुष्टता होती है। मैं ने मन में कहा कि परमेश्वर धर्मी १७  
 और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा क्योंकि उस के यहां  
 एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैं ने १८  
 मन में कहा कि यह तो मनुष्यों के कारण इसलिये  
 होता है कि परमेश्वर उन का जन्म और वे देख सकें  
 कि हम पशु के समान हैं। क्योंकि जैसी मनुष्यों की १९  
 वंसी ही पशुओं की भी दशा होती है दोनों की वही  
 दशा होती है जैसे यह मरता वैसे ही वह भी मरता है  
 और सबों का एक ही प्राण है और मनुष्य पशु से कुछ  
 बढ़कर नहीं क्योंकि सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान २०  
 में जाते हैं सब मिट्टी से बने और सब मिट्टी में फिर  
 मिल जाते हैं। मनुष्यों का प्राण क्या ऊपर की ओर २१  
 चढ़ता और पशुओं का प्राण क्या नीचे की ओर जाकर  
 मिट्टी में मिल जाता है यह कौन जानता है। सो मैं ने देखा २२  
 कि इस से अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने  
 कामों में आनन्दित रहे क्योंकि उस का भाग यही है और  
 उस के पीछे होनेहारी बातों के देखने के लिये कौन उस  
 को लौटा ले आए ॥

४. तब मैं ने फिर कर वह सब अन्धेर  
 देखा जो धरती पर<sup>१</sup> किया जाता  
 है और क्या देखा कि अन्धेर सहनेहारों के आंसू बह रहे  
 हैं और उन को कोई शांति देनेहारा नहीं और अन्धेर

- करनेहारों के तो रुकिए प्र उन को कोई धाति देने-  
 २ हारा नहीं । इसलिये मैं ने मरे दुष्टों को जो मर चुके  
 हैं उन जीवतों से जो अब लो जीते हैं अर्धक सराहा ।  
 ३ वरन उन दोनों से अधिक सुभागी वह है जो अब लो  
 हुआ ही नहीं न्यं कि उस ने ये तुरे काम नहीं देखे जो  
 धरती पर<sup>२</sup> होते हैं ॥
- ४ तब मैं ने सब परिश्रम और सब सफल काम देखा  
 और क्या देखा कि इस के कारण लोग एक दूसरे से  
 जलते हैं यह भी व्यर्थ और वायु के पकड़ना है ।  
 ५ मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता<sup>२</sup> और अपना मांस खाता  
 ६ है । चैन के साथ एक मुट्ठी भर परिश्रम करने और वायु  
 के पकड़ने के साथ दो मुट्ठी भर से अच्छा है ॥
- ७ तब मैं ने पलटकर धरती पर<sup>२</sup> यह भी व्यर्थ बात  
 ८ देखी । कोई अकेला रहता और उस का कोई नहीं है न  
 उस के बेटा है न भाई है तौभी उस के परिश्रम का अन्त  
 नहीं होता और न उस की आखें धन से सन्तुष्ट होती  
 हैं वह कहता है कि मैं किस के लिये परिश्रम करता और  
 अपने जीव को सुखरहित रखता हूं वह भी व्यर्थ और  
 ९ निरा दुःखभरा काम है । एक से दो अच्छे हैं क्योंकि  
 १० उन के परिश्रम का अच्छा फल मिलता है । क्योंकि  
 यदि उन में से एक गिरे तो दूसरा उस को उठाएगा पर  
 हाथ उस पर जो अकेला होकर गिरे और उस का कोई  
 ११ उठानेहारा न होए । फिर यदि दो जन एक संग सोएँ  
 तो वे गर्म रहेंगे पर कोई अकेला क्योंकि गर्म रह सके ।  
 १२ और कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो पर दो उस का  
 साम्हना कर सकेंगे और जो डोरी तीन तागे से बटी हो  
 सो जल्दी न टूटेगी ॥
- १३ बुद्धिमान् जवान दग्ध होने पर भी ऐसे बूढ़े और  
 मूर्ख राजा से जो फिर उपदेश ग्रहण न करे कहीं उत्तम  
 १४ है । क्योंकि यद्यपि उस के राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ  
 १५ तौभी वह बन्दीगृह से निकलकर राजा हुआ । मैं ने  
 सब जीवतों को जो धरती पर<sup>२</sup> चलते फिरते हैं देखा कि  
 वे उस दूसरे अर्थात् उस जवान के संग ही लिये हैं जो  
 १६ पहिले के स्थान में खड़ा हुआ । अनागन्त ये वे सब  
 लोग जिन पर वह प्रधान हुआ था तौभी पीछे होनेहारे  
 लोग उस के कारण आनन्दित न होंगे निःसन्देह यह भी  
 व्यर्थ और वायु को पकड़ना है ॥

### ५. जब तू परमेश्वर के वर में जाए तब

सावधानी से चलना<sup>३</sup> क्योंकि सुनने  
 के लिये समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा

(१) मूल में सरज के नाचे । (२) मूल में दोनों हाथ मिलाना ।

(३) मूल में अपने पैर की रक्षा करना ।

है इस लिये कि वे नहीं जानते कि हम तुरा करते हैं ।  
 बात करने में उतावली न करना और अपने मन से २  
 कोई बात उतावली करके परमेश्वर के साम्हने न निका-  
 लना क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में पर तू पृथिवी पर है इस-  
 लिये तेरे वचन थोड़े ही हों । क्योंकि जैसे बहुत से ३  
 धन्वों के कारण स्वप्न देखा जाता है वैसे ही बहुत सी  
 बात का बोलनेहारा मूर्ख ठहरता है । जब तू परमेश्वर ४  
 की कोई मन्नत माने तब उस के पूरे करने में विलम्ब न  
 करना क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता सो जो  
 मन्नत तू ने मानी हो उसे पूरी करना । मन्नत मानकर ५  
 पूरी न करने से मन्नत न मानना हा अच्छा है । कोई ६  
 वचन कहकर अपना शरीर पाप में न फंसाना न ईश्वर के  
 दूत के साम्हने कहना कि यह मूल से हुआ परमेश्वर  
 क्यों तेरा बोल सुनकर रिनियाए और तेरा काम नाश ७  
 करे । क्योंकि बहुत स्वप्नों और व्यर्थ कामों और बहुत ७  
 बातों से ऐसा होता है पर तू परमेश्वर का भय  
 मानना ॥

यदि तू किसी प्रान्त में निर्धनों का अन्धैर सहना ८  
 और न्याय और धर्म का बरियाई से भिगड़ना देखे तो  
 इस बात से चकित न होना क्योंकि उन बड़े से भी  
 एक बड़ा है और उस को इन बातों की सुधि रहती है  
 और उन दोनों से भी अधिक बड़े हैं । फिर सब प्रकार ९  
 से देय का लाभ इस से होता है कि राजा खेती की  
 सुधि लेता है ॥

जा रुपये में प्रीति रखे सो रुपये से तृप्त न होगा १०  
 और जो बहुत धन में प्रीति रखे उस को कुछ फल न  
 होगा यह भा व्यर्थ है । जब संपत्ति बढ़ती है तब उस के ११  
 खानेहारे भी बढ़ते हैं तब उस के स्वामी को इसे छोड़  
 क्या लाभ हुआ कि उस ने उस संपत्ति को अपनी आखों  
 से देखा है । परिश्रम करनेहारा चाहे थोड़ा खाए चाहे १२  
 बहुत तौभी उस की नींद सुखदाई होती है पर धनी के  
 धन के बढ़ने के कारण उ- के नींद नहीं आती ॥

एक बड़े शोक की बात है जिसे मैं ने धरती १३  
 पर<sup>२</sup> देखा है अर्थात् वह धन जिस के रखने से उस के  
 स्वामी की निरी हानि होता है । क्योंकि उस का धन १४  
 बड़े दुःखभरे काम करत करते उड़ जाता है और यदि  
 उस के बेटा हुआ हो तो उस के हाथ कुछ नहीं  
 लगता । जैसा वह मा के पेट से निकला वैसा ही वह १५  
 नंगा लौट जाएगा और उस के परिश्रम का कुछ भी न  
 रहेगा जो वह अपने हाथ में ले जा सके । सो यह भी १६  
 बड़े शोक की बात है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही  
 वह जाएगा भी फिर उस परिश्रम से क्या लाभ वह

१७ व्यर्थ ही हुआ । फिर वह जीवन भर अन्धे में खाता और बहुत ही रिलियाता और रोमी रहता और क्रोध भी करता है ॥

१८ सुन जो मैं ने देखा है सो यह है कि जिस परि-  
भ्रम में कोई घरती पर<sup>१</sup> लगा रहे उस में वह खाए पीए  
और परमेश्वर के ठहराये हुए अपने जीवन भर सुख भी  
माने यही अच्छा और उचित है क्योंकि उस का भाग  
१९ यही है । बरन जिस किसी मनुष्य को परमेश्वर ने धन  
संपाप्त दी हो और उसे भोगने और उस से अपना भाग  
लेने और परिभ्रम करते हुए आनन्द करने की शक्ति भी  
२० दी हो तो यह परमेश्वर का वरदान है । क्योंकि इस  
जीवन के दिन उस को बहुत स्मरण न रहेंगे और  
परमेश्वर उस की सुन सुनकर उस के मन को आनन्दित  
करता है ॥

६. एक बला है जो मैं ने घरती पर<sup>२</sup> देखी है

वह मनुष्यों को बहुत दबाये रहती  
२ है । अर्थात् किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपाप्त और  
प्रतिष्ठा यहां ली देता है कि जो कुछ उस का जी चाहता  
है उस में से कुछ भी नहीं बटता तौभी परमेश्वर उस को  
उस में से खाने नहीं देता कोई बिराना ही उसे खाता है  
३ यह व्यर्थ और बड़े शोक<sup>३</sup> की बात है । यदि कोई पुरुष  
सी लड़के जन्माए और बहुत बरस जीता रहे और उस  
की अवस्था बढ़ जाए पर उस का जी सुख से तृप्त न हो  
और न उस की अन्तर्क्रिया की जाए तो मैं कहता हूँ कि  
४ ऐसे मनुष्य से मरा बन्ना ही उत्तम है । क्योंकि वह व्यर्थ  
होता और अन्धे में जाता है और उस का नाम कभी  
५ लिखा नहीं जाता<sup>४</sup> । और ज्योति<sup>५</sup> को बढ़ न देखने न  
आनने पाया सो इस को उस मनुष्य से अधिक चैन  
६ मिला । बरन चाहे वह दो हजार बरस जीता रहे और  
कुछ सुख भोगने न पाए तो उसे क्या हुआ क्या सब के  
७ सब एक ही स्थान में नहीं जाते । मनुष्य का साग  
परिभ्रम उस के पेट के लिये होता तो है तौभी उस का  
८ जी नहीं भरता । जो बुद्धिमान् है सो मूर्ख से किस  
बात में बढ़कर है और दीन जन जो यह जानता है कि  
इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिये सो भी  
९ उस से किस बात में बढ़कर है । आसों का सुफल होना  
जी के हाथोंडोल हाने से उत्तम है यह भी व्यर्थ और  
बाधु को पकड़ना है ॥

जो हुआ है उस का नाम बहुत दिनों से रक्खा १०  
गया है और यह प्रगट है कि वह आदमी<sup>६</sup> है और न  
वह उस से जो उस से अधिक शक्तिमान है मुकद्दमा  
लड़ सकता है । बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन के कारण ११  
जीवन और भी व्यर्थ होता है फिर मनुष्य को क्या  
लाभ । क्योंकि मनुष्य के व्यर्थ जीवन के सब दिनों में १२  
जो वह परछाईं की नाईं बिताता है उस के लिये क्या  
क्या अच्छा है सो कौन जानता है और मनुष्य के पीछे  
घरती पर<sup>२</sup> क्या होगा सो भी उसे कौन बता  
सकता है ॥

७. अच्छा नाम अनमोल तेल से और मृत्यु  
का दिन जन्म के दिन से उत्तम

है । जेवनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम २  
है क्योंकि सब मनुष्यों के लिये अन्त में मृत्यु का शोक  
यही है और जो जीता है सो इसे मन लगाकर सोचे ।  
खेद हसी से उत्तम है क्योंकि जब भुंह पर शोक छा ३  
जाता है तब मन सुधरता है । बुद्धिमानो का मन शोक ४  
करनेहारों के घर की ओर लगा रहता पर मूर्खों का मन  
आनन्द के घर में लगा रहता है । मूर्खों क गीत सुनने ५  
से बुद्धिमान् की घुड़की सुनना उत्तम है । क्योंकि मूर्ख ६  
की हसी हांड़ी के नीचे जलते हुए काटों की चरचराहट के  
समान होती है यह भी व्यर्थ है । निश्चय अन्धे में ७  
पड़ने से बुद्धिमान् बाबला हो जाता है और घूस लेने  
से बुद्धि नाश होती है । किसी काम के आरंभ से उस का ८  
अन्त उत्तम है और धीरजवन्त पुरुष गर्भी से उत्तम है ।  
अपने मन में उतावली करके न रिसियाना क्योंकि रिस ९  
मूर्खों ही के हृदय में रहती है । तू न कहना कि इस १०  
का क्या कारण है कि बीते दिन इन से उत्तम थे क्योंकि  
यह तू बुद्धिमानो से नहीं पूछता । बुद्धि बपौती के ११  
समान है बरन जीवतों<sup>६</sup> के लिये उस से भेष्ट है । क्योंकि १२  
बुद्धि आइ का काम देता है रुपया भां आइ का  
काम देता है पर ज्ञान की यह श्रद्धता है कि बुद्धि से  
उस के रखनेहारो क जीवन की रक्षा होता है । परमेश्वर १३  
के काम पर दृष्ट कर जिस वस्तु को उस ने टेढ़ी किया  
हो उसे कौन सीधी कर सकता है । सुख के दिन सुख १४  
मान और दुःख के दिन सोच क्योंकि परमेश्वर ने दोनों  
को एक ही संग रक्खा है जिस से मनुष्य न बूझ सके  
कि मेरे पीछे क्या होनेहारा है ॥

(१) मूल में सुरज के नीचे । (२) मूल में रोग ।  
(३) मूल में क्षिपा है । (४) मूल में सूर्य ।

(५) अर्थात् मिट्टी का बना हुआ ।  
(६) मूल में सूर्य के देखनेहारों ।

- १५ मैं ने अपने व्यर्थ दिनों में सब कुछ देखा है ऐसा धर्मा होता है जो धर्म करते हुए नाश हो जाता है और ऐसा दुष्ट है जो बुराई करते हुए दीर्घायु होता है ।
- १६ अति धर्मी न बन और न अग्ने को अधिक बुद्धिमान्
- १७ ठहरा तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो । अत्यन्त दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो तू असमय क्यों मरे ।
- १८ यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात से भी हाथ न उठाए क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनायियों से पार हो जाएगा ॥
- १९ बुद्धि ही से नगर में के दस हाकिमों की अपेक्षा
- २० बुद्धिमान् को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होता है । निःसन्देह पृथिवी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो बिना चूके
- २१ भलाई करे । फिर जितनी बातें कही जाएं सब पर कान न लगाना ऐसा न हो कि तू अपने दास को तुम्हें ही
- २२ कोसते हुए सुने । क्योंकि तू आप जानता है कि तू ने भी बहुत बेर औरों को कोसा है ॥
- २३ यह सब मैं ने बुद्धि से जांच लिया है मैं ने कहा कि मैं बुद्धिमान् हो जाऊंगा पर यह मुझ से दूर रहा ।
- २४ जो हुआ है सो दूर और अत्यन्त गहिरा है उस का
- २५ भेद कौन पा सकता है । मैं अपना मन लगाता हुआ फिरता रहा कि बुद्धि के विषय जान लूं उस का भेद जानूं और खोज निकालूं और यह भी जानूं कि दुष्टता
- २६ निरा मूर्खता है और मूर्खता निरा शबलापन है । और मैं ने मृत्यु से भी अधिक दुःखदाई एक वस्तु पाई अर्थात् वह स्त्री जिस का मन फन्दे और जाल के और जिस के हाथ बन्धन के सरीखे हैं जो पुरुष परमेश्वर को भाए वही उस से बचेगा पागी उस से बभाया जाएगा ।
- २७ सभा का उपदेशक कहता है कि मैं ने लेखा करने के लिये अलग अलग बातें मिलाकर जांचीं और यह बात
- २८ निकाली, उसे भी मेरा मन दूढ़ रहा है पर नहीं पाया अर्थात् हजार में से मैं ने पुरुष तो पाया पर उन में एक
- २९ भी स्त्री नहीं पाई । देखो विशेष करके मैं ने यह बात पाई तो है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था पर मनुष्यों ने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं ॥

### ८. बुद्धिमान् के तुल्य कौन है और किसी

- बात का अर्थ कौन लगा सकता है मनुष्य की बुद्धि के कारण उस का मुख चमकता और उस के मुख की टिठई दूर हो जाती है । मैं कहता हूं कि परमेश्वर की किरिया के कारण राजा की
- ३ आशा मानना । राजा के साम्हने से उतावली करके न फिरना और न बुरी बात पर बने रहना क्योंकि वह जो
- ४ कुछ चाहे सो करेगा । क्योंकि राजा के बचन में तो

सामर्थ्य रहता है और कौन उस से कह सके कि तू क्या करता है । जो आशा को मानता है सो बुरी बात में भागी नहीं होता क्योंकि बुद्धिमान् का मन समय और न्याय का भेद जानता है । एक एक विषय का समय और न्याय तो होता है इस कारण मनुष्य की दुर्दशा उस के लिये बहुत मारी है । वह नहीं जानता कि क्या होनेवाला है और कब होगा यह उस को कौन बता सकता है । कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिस का वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले और न कोई मृत्यु के दिन में अधिकारी होता है और न उस लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं । यह सब कुछ मैं ने देखा और जितने काम धरती पर किये जाते हैं सब को मन लगाकर विचारा कि ऐसा समय होता है कि एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के वश में रहने से उस की हानि होती है ॥

और फिर मैं ने दुष्टों को मिट्टी पाते देखा अर्थात् उन की कबर तो बनी पर जिन्होंने ठीक काम किया था सो पवित्रस्थान से निकल गये और उन का स्मरण नगर में न रहा यह भी व्यर्थ ही है । बुरे काम के दरुड की आशा फुर्ती से पूरी नहीं होती इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है । चाहे पागी सो बार पाप करे और अपने दिन भी बड़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते और अपने तई उस के सम्मुख जानकर भय मानते हैं उन का तो भला ही होगा । पर दुष्ट का भला नहीं होने का और उस की जीवनरूपी छाया लम्बी होने न पाएगी क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता । एक व्यर्थ बात पृथिवी पर होती है अर्थात् ऐसे धर्मी हैं जिन की दुष्टों के काम के योग्य दशा होती है और ऐसे दुष्ट भी हैं जिन की धर्मियों के काम के योग्य दशा होती है सो मैं ने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है । तब मैं ने आनन्द को सराहा इसलिये कि धरती पर मनुष्य के लिये खाने पीने और आनन्द करने को छोड़ कुछ अच्छा नहीं क्योंकि उस के जीवन भर में जो परमेश्वर उस के लिये धरती पर ठहराए उस के परिभ्रम में यही उस के सग बना रहेगा ॥

जब मैं ने बुद्धि जानने और सारे दुःखभरे काम देखने के लिये जो पृथिवी पर किये जाते हैं अपना मन लगाया कि कोई कोई मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैं ने परमेश्वर का सारा काम देखा कि जो काम धरती पर किया जाता है उस की याह मनुष्य नहीं पा सकता चाहे मनुष्य उस की खोज में परिभ्रम



- भी करे तौभी उस को न पाएगा वरन बुद्धिमान् भी कहे कि मैं उसे समझूंगा तौभी वह उस की थाह न पा सकेगा । क्योंकि मैं ने यह सब कुछ मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं अर्थात् यह कि धर्मी और बुद्धिमान् लोग और उन के काम परमेश्वर के हाथ में हैं चाहे प्रेम हो चाहे वैर मनुष्य नहीं जानता उन के आगे सब प्रकार की बातें हैं । सब घटनाएँ सब को बराबर होती हैं धर्मी दुष्ट भले शुद्ध अशुद्ध यश करने और न करनेहारे सबों की एक सी दशा होती है जैसी भले मनुष्य की दशा वैसी ही पापी की दशा जैसी किरिया खानेहारे की दशा वैसा ही वह है जो किरिया खाते डरे । जो कुछ धरती पर किया जाता है उस में यह एक दोष है कि सब लोगों का एक सी दशा होता है और फिर मनुष्यों के मन में बुराई भरी हुई है और उन के जीते जी उन के मन में बावलापन रहता है और पोछे वे मर हुओं में जा मिलते हैं । क्योंकि उस को जो सब जीवों में मिला हुआ हो उस का भरोसा है वरन जीवता कुत्ता तो मरे हुए सिंह से बढ़कर है । क्योंकि जीवते तो इतना जानते कि हम मरेंगे पर मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उन को बदला मिल सकता है क्योंकि उन का स्मरण मिट गया है । उन का प्रेम और उन का वैर और उन की डाह अब नाश हो चुके और जो कुछ धरती पर किया जाता है उस में उन का फिर सदा लौ कोई भाग न हाँगा ॥
- ७ चल अपनी रोटि आनन्द से खाया कर और अपना दाखमधु मन से सुख मान कर पिया कर क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है । तेरे वल्ल सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल का थटी न हो । अपने जीवन के सारे व्यर्थ दिन जो उस ने धरती पर तेरे लिये ठहराये हैं अपनी प्यारी छाँ के संग अपने व्यथ जीवन के दिन बिताना क्योंकि तेरे जीवन में और तेरे परिश्रम में जो तू धरती पर करता है तेरा यही भाग है । जो काम तुम्हें मिले सो अपनी शक्ति भर करना क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जानेवाला है न काम न युक्ति न शान न बुद्धि चलती है ॥
- ११ मैं ने फिर कर धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़नेहारे और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं फिर न तो बुद्धिमान् लोग रोटि पाते हैं और न समझवाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है वे सब समय और

संयोग के बश में हैं । क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता जैसे मकलियां दुखदाई जाल में बकतीं और चिड़ियाएँ फँदे में फँसती हैं वैस ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फँस जाते हैं ॥

मैं ने धरती पर इस प्रकार की भी बुद्धि देखी है और वह मुझे बड़ी जान पड़ी । अर्थात् एक छोटा सा नगर था और उस में थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उस धर लिया और उस के विरुद्ध बड़े बड़े कोट बनवाये । और उस में एक दरिद्र बुद्धिमान् पुरुष पाया गया और उस ने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया पर किसी ने उस दरिद्र पुरुष को स्मरण न रक्खा । तब मैं ने कहा बुद्धि पराक्रम से उत्तम है तौभी उस दरिद्र की बुद्धि तुच्छ की जाती है और उस के वचन कोई नहीं सुनता ॥

बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं सो मूर्खों क बीच प्रभुता करनेहार के चिल्ला चिल्लाकर कहने से अधिक सुने जाते हैं । बुद्धि लड़ाई के हाथियों से उत्तम है और एक पापी से बहुत भलाई नारा हाती

१० है । मरी हुई मकलियों क कारण गन्धी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा से भारी हाती है । बुद्धिमान् का मन दाहिनी ओर रहता पर मूर्ख का मन बाई ओर रहता है । वरन जब मूल मार्ग पर चलता है तब उस का मन काम में नहीं आता और वह मानो सब से कहता है मैं मूर्ख हूँ । यदि हाकिम का कोप तुम्ह पर भड़के ता अपना स्थान न छाड़ना क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं, एक बुराई है जो मैं ने धरती पर देखी है सो हाकिम की भूल से होती हुई जान पड़ती है । अर्थात् मूर्ख बड़ा प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराये जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं । मैं ने दासों को थोड़ों पर चढ़े और रईसों का दासों की नाई भूमि पर चलते हुए देखा है । जो गड़हा खोदे सो उस में गिरेगा और जो बाड़ा ताड़े उस को सर्प डसेगा । जो पत्थर उठाए सो उन से घायल होगा और जो लकड़ी काटे उसी से कटने का डर होगा । यदि लोखर थोथा हो और मनुष्य उस की धार को पैनी न करे तब तो अधिक बल करना पड़ेगा पर काम चलाने क लिये बुद्धि से लाभ होता है । यदि मंत्र न होने के कारण सर्प डसे तो पीछे मंत्र पढ़नेहारे का कुछ लाभ नहीं । बुद्धिमान् के वचनों के कारण अनुग्रह होता है पर मूर्ख

- १३ अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं । उस की बात  
 १४ आरम्भ में मूर्खता की और अन्त में दुःखदाईं शब्दनेत्र  
 की होती है । मूर्ख बहुत बातें बोलता है तौ भी कोई  
 मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और मनुष्य के पीछे  
 १५ क्या होनवाला है सो कौन उसे बता सकता है, मूर्खों  
 के परिश्रम से थकावट ही होती है वह नहीं ज्ञानता  
 १६ कि नगर को कैसे जाए । हे दे० तुझ पर हाथ कि तेरा  
 राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातःकाल को भोजन  
 १७ करते हैं । हे देश तू धन्य है कि तेरा राजा कुलीन का  
 पुत्र है और तेरे हाकिम समय पर भोजन करते हैं और  
 यह भी मतवाले होने को नहीं बरन बल बढ़ाने के लिये ।  
 १८ आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं और  
 १९ हाथों की सुस्ती से घर चूता है । भोज हंसी खुशी के  
 लिये किया जाता और दाखमधु से जीवन को आनन्द  
 मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है ।  
 २० राजा को मन ही मन भी न कोसना और न धनवान  
 को अपने शयन की कोठरी में भी कोसना क्योंकि कोई  
 आकाश का पत्नी तर वचन को ले जाएगा और कोई  
 उड़नेहारा जन्तु उस बात को पगट करगा ॥

### ११. अपनी भोजनवस्तु जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन

- २ के पीछे तू उसे फिर पाएगा । सात बरन आठ जनकों को  
 भी भाग दे क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथिवी पर क्या  
 ३ विपत्ति आ पड़ेगी । जब बादल जल भर लाते हैं तब  
 उस को भूमि पर उगडेल देते हैं और वृक्ष चाहे दरखन  
 की और गिरे चाहे उत्तर को और तौभी जिस स्थान पर  
 ४ वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा । जो वायु की सुधि रखेगा  
 सो भीज बाने न पाएगा और जो बादलों को देखता  
 ५ रहेगा सो लवने न पाएगा । जैसे तू नहीं जानता कि  
 वायु के चलने का क्या मार्ग होगा और गर्भवती के पेट  
 में हड़िया किस रीति हाती हैं वैसे ही परमेश्वर जो सब  
 ६ भोर को अपना भीज बां और सांभ को भी अपना हाथ  
 न राक क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन मुफल होगा चाहे  
 यह चाहे वह वा दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे ।  
 ७ उजियाला मनभावना होता है और धूप के देखने से  
 ८ आंखों को सुख होता है । सो यदि मनुष्य बहुत बरस  
 जीता रहे तो उन सभी में आनन्दित तो रहे पर अन्ध-  
 यार के दिनों की भी सुधि रखे क्योंकि वे बहुत होंगे  
 जो कुछ होनेहारा है सो व्यर्थ है ॥  
 ९ हे जवान अपनी जवानी में आनन्द कर और अपनी  
 जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी

चाल चल और अपनी आंखों की हाई के अनुसार चल  
 पर यह जान रख कि इन सारी बातों के विषय परमेश्वर  
 तेरा न्याय करेगा । सो अपने मन से खेद और अपनी १०  
 देह से दुःख दूर कर क्योंकि जवानी और चटक व्यर्थ हैं ।

१२. अपनी जवानी के दिनों में अपने सिरजनहार १  
 को भी हमरण रख कि अबलों विपत्ति  
 के दिन और वे बरस नहीं आये जिन में तू कहेगा २  
 कि मेरा मन इन में नहीं लगता । तब सूर्य और ३  
 प्रकाश और चन्द्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएंगे और  
 वर्षा होने के पीछे बादल फिर धिर आएंगे । उस समय ४  
 धूप के मध्ये कापेंगे और बलवन्त भुकेंगे और रिसनहा-  
 रियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और भरोखी  
 में से देखनेहारियां अंधी हो जाएंगी । और सड़क की ५  
 ओर के किबड़ बन्द होंगे और चक्की पीसने का शब्द  
 धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही नींद खुगी  
 और सब गानहारियों का शब्द धीमा हो जाएगा १ । फिर ५  
 जो ऊंचा हो उस से भय खाया जाएगा और मार्ग में  
 डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़  
 फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भुल बढ़ानेहारा  
 फल फिर काम न देगा क्योंकि मनुष्य अपने सदा के  
 घर को जानेहारा होगा और गेने पीटनेहार सड़क सड़क  
 फिरेंगे । उस समय चांदी का तार टूट होगा और ६  
 सोने का कटोरा टूटगा और सोते के पास धड़ा फूटेगा  
 और कुण्ड के पास रहट टूट जाएगा । तब मट्टी ज्यों की ७  
 त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास  
 जिस ने उसे दिया लौट जाएगा । सभा का उपदेशक ८  
 कहता है कि सब व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है ॥

और फिर सभा का उपदेशक जो बद्धिमान था ९  
 इसलिये वह प्रजा को ज्ञान सिखाता रहा और कान  
 लगाकर और पूछगछ करके बहुत से नीति वचन क्रम से  
 रखता था । सभा का उपदेशक मनभावनी बातें खोज- १०  
 कर निकालता था और ये बातें सच्ची हैं जो सीधादे से  
 लिखी गई थी ॥

बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं और ११  
 सभाओं के प्रधानों की बातें गाड़ी हुई कालों के सरीखी  
 हैं सो एक ही चरवाहे की ओर से मिलती हैं । और १२  
 फिर हे भरे पुत्र चौकसी इन्हीं से सीख बहुत पुस्तकों की  
 रचना का अन्त नहीं होता और बहुत पाठ करने से  
 देह थक जाती है ॥

सब कुछ सुना गया अन्त की बात यह है कि परमेश्वर १३

(१) मूल में नींद से उठ जाएगा । (२) मूल में गाने बजाने की सब  
 वेदियां नीची की जाएंगी ।

का भव मान और उस की आशाओं को पाल क्योंकि  
१४ सब मनुष्यों का काम यही है । और परमेश्वर सब कामों

का और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो चाहे दुगी  
न्याय करेगा ॥

## श्रेष्ठगीत ।

१. श्रेष्ठगीत जो सुलैमान का है ॥

२ व अपने मुँह से चूम  
क्योंकि तेरा प्यार दाखमधु से उत्तम है ॥  
३ तेरे भाँति भाँति के तेल का सुगन्ध उत्तम है  
तेरा नाम बहाया हुआ तेल सा है  
इस कारण कुमारियाँ तुझ से प्रेम रखती हैं ॥  
४ मुझे खींच हम तेरे पीछे दौड़ेंगी  
राजा मुझ अन्तःपुर में ले आया है  
हम तेरे कारण मगन और आनन्दित होंगी  
हम दाखमधु से आधिक तेरे प्यार की चर्चा  
करेंगी  
सब मन से वे तुझ से प्रेम रखती हैं ॥  
५ हे यरुशलेम की स्त्रियो  
मैं काली तो हूँ पर सुन्दर हूँ  
केदार के तम्बुओं के सरीखी  
सुलैमान के पदों के समान हूँ ॥  
६ इस कारण मुझ को न निहारना कि मैं काली  
सी हूँ  
मैं धूप से झुलस गई  
मेरे सगे भाई मुझ पर क्रोधित हुए  
उन्होंने मुझ को दाख की बरियों की रखवालि  
छूराया  
अपनी निज दाख की बारी की रखवाली में करने  
न पाई ॥  
७ हे मेरे प्राणपथ मुझें बता  
कि तू अपनी मेड़ बकरियों कहां चराता और  
दोगहर को कहां बैठाता है  
मैं क्यों तेरे संगियों की मेड़ बकरियों के पास  
क्यों घबट काड़े हुए चलनेबारा सी होऊँ ॥  
८ हे स्त्रियो मैं सुन्दरी यदि तू यह न जानती हो  
तो मेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल

और चरवाहों के घरों के पास अपनी बकरियों की  
बन्धियां चरा ॥  
हे मेरी प्यापी मैं ने तुझे ९  
फिरौन के रथों में बुते हुए घोड़ों से उपमा  
दी है ॥  
तेरे गाल बन्दी के बीच १०  
और तेरा गला रखों की कण्ठी के कारण क्या हो  
सुन्दर लगता है ॥  
हम तेरे लिये चादी के बोर मिलाये हुए ११  
सोने की लड़ियां बनवाएंगे ॥  
राजा अपनी मेज के पास बैठा हुआ था १२  
कि मेरी जटामासी का सुगन्ध फैलने लगा ॥  
मेरा प्यारा मेरे लिये गन्धस की पोटली ठहरा है १३  
जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहे ॥  
मेरा प्यारा मेरे लिये मँहदी के फूलों का ऐना १४  
गुच्छा है  
जो एनगरी की दाख को बरियों में होता ॥  
तू सुन्दर है हे मेरी प्यारी तू सुन्दर है १५  
तेरी आखें कबूतरी की सी हैं ॥  
हे मेरे प्यारे तू सुन्दर और मनभावना है १६  
और हमारा बिलौना हरा है ॥  
देवदास हमारे घर की कड़ियां १७  
और सनौव हमारी छत के बरगे हैं ॥

२. मैं शारोन देश का केसर  
और तराइयों में का सोसन फूल हूँ ॥  
जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच २  
वैसे मेरी प्यापी और मुक्तियों के बीच है ॥  
जैसे सेव का वृक्ष जंगली वृक्षों के बीच ३  
वैसे मेरा प्यारा और जवानों के बीच है ।  
मैं उस की छाया में हर्षित होकर बैठ गई  
और उस का फल मुझे खाने में मीठा लगा ॥  
वह मुझे दाखमधु पीने के घर में ले आया ४

- और उस का जो भ्रष्टा मेरे ऊपर फहराता था  
तो प्रेम था ॥
- ५ मुझे सुली दालों से संभालो सेव खिलाकर  
बन्ध दो  
क्योंकि मैं प्रेम से विवश<sup>१</sup> हूँ ॥
- ६ उस का बायां हाथ मेरे सिर के नाँचे है  
और वह अपने दहिने हाथ से मुझे आलिंगन कर  
रहा है ॥
- ७ हे यरूशलेम की स्त्रियो मैं तुम से  
चिकारियों और मैदान की हरणियों की सोह  
घर कर कहती हूँ  
कि जब लो प्रेम आप से न उठे  
तब लो उस को न उसकाओ न जगाओ ॥
- ८ मेरे प्यारे का शब्द सुन पड़ता है  
देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों पर  
कान्दता हुआ आता है ॥
- ९ मेरा प्यारा चिकारे व जवान हरिन के समान है  
देखो वह हमारी भीत के पीछे खड़ा  
और खिड़कियों से झंकारता  
और भँकरी से ताकता है ॥
- १० मेरा प्यारा मुझ से कह रहा है  
हे मेरी प्यारी हे मेरी सुन्दरी उठकर चली आ ॥
- ११ क्योंकि देख कि जाड़ा जाता रहा  
मेंद छूट गया और जाता रहा है ॥
- १२ पृथिवी पर फूल दिखाई देते  
चिड़ियों के बोलने का समय आ पहुँचा  
और हमारे देश में पण्डुक का शब्द सुनाई  
देता है ॥
- १३ अजीर पकने लगे  
और दाखलतार्ण फूलती  
और सुगन्ध दे रही हैं  
हे मेरी प्यारी हे मेरी सुन्दरी उठकर चली आ ॥
- १४ हे मेरी कबूतरी हे ढांग की दरारों  
और चढाई की झड़ी में रहनेहारी  
अपना मुख मुझे दिखा  
अपना बोल मुझे सुना  
क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख सुन्दर है ॥
- १५ जो छोटी लोमाड़ियां<sup>२</sup> दाख की बारियों को  
बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लो  
क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं ॥
- १६ मेरा प्यारा मेरा है और मैं उस की हूँ

(१) मूल में बीमार । (२) मूल में लोमकियां छोटी लोमकियां ।

यह अपनी मेव बकरियां सोसन फूलों के बीच  
चराता है ॥  
जब लो दिन का अरुडः समय न आए और छाया १७  
लम्बी होते होते भिट न आए  
तब लो हे मेरे प्यारे फिर और उस चिकारे का  
जवान हरिन के समान बन  
जो बेतेर<sup>३</sup> के पहाड़ों पर फिरता हो ॥

३. रात के समय मैं अपने पलंग पर  
अपने प्राणप्रिय को ढूँढती रही  
मैं उसे ढूँढती तो रही पर पाया नहीं ॥

मैं ने कहा मैं उठकर नगर में  
और सड़की और चौकों में घूमकर  
अपने प्राणप्रिय को ढूँढूंगी  
मैं उसे ढूँढती तो रही पर पाया नहीं ॥  
जो पहरेपर नगर में घूमते हैं सो मुझे मित  
मैं ने उन से पूछा क्या तुम ने मेरे प्राणप्रिय को  
देखा है ॥

मुझ को उन के पास से बड़े हुए थोड़ी ही बेर हुई  
कि मेरा प्राणप्रिय मुझे मिला  
मैं ने उस को पकड़ लिया  
और जब लो उसे अपनी माता के घर  
अर्थात् अपनी जननी का कोठरी में न ले आई तब  
लो उस को जाने न दिया ॥

हे यरूशलेम की स्त्रियो मैं तुम से  
चिकारियों और मैदान का हरणियों की सोह घरा-  
कर कहती हूँ

कि जब लो प्रेम आप से न उठे  
तब लो उस को न उसकाओ न जगाओ ॥  
यह क्या है जो धूप के खम्भो के सरीखा  
गन्धरस और लोबान से सुगन्धित  
और न्योपारी के सब भाति की बुकनी लगाये हुए  
जंगल से निकला आता है ॥

देखो यह सुलैमान की पालकी है  
उस के चारों ओर साठ वीर चल रहे हैं  
जो इस्राएल के शूरवीरो में से हैं ॥  
वे सब के सब तलवार बांधनेहारे और युद्ध की  
विद्या सीखे हैं

एक एक पुरुष रात के डर के मारे  
जांघ पर तलवार लटकाये हुए रहता है ॥  
सुलैमान राजा ने एक महाडोल

(३) अर्थात् भलगाई ।

- १० लवानोन के काठ का बनवा लिया है ॥  
उस ने उस के खम्भे चांदी के  
उस का सिरहाना सोने का और गहरे अर्गवानी  
रंग की बनवाई  
और उस के बीच का स्थान  
यरूशलेम की स्त्रियों की ओर से प्रेम से जड़ा  
गया है ॥
- ११ हे सिम्थोन की स्त्रियां निकलकर सुलैमान राजा  
पर दृष्टि करो  
देखो वह वही मुकुट पहिने हुए है  
जो उस की माता ने उस के विवाह के दिन  
और उस के मन के आनन्द के दिन उस के सिर  
पर रक्खा है ॥

४. हे मेरी प्यारी तू सुन्दर है तू सुन्दर है  
तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों  
की सी दिखाई देती हैं

तेरे बाल उन बकरियों के भुण्ड के समान हैं  
जो गिलाद पहाड़ के ढलान पर लेटी हुई देख  
पड़ती हैं ॥

- २ तेरे दान्त उन ऊन कतरी हुई मेड़ियों के भुण्ड  
के समान हैं

जो नहाकर ऊपर आती हैं  
और जुड़वां जुड़वां हांती हैं  
और उन में से किसी का साथी नहीं जाता रहा ॥

- ३ तेरे होंठ लाही रंग की डोरी के समान हैं  
और तेरा मुंह सजीला है

तेरी कनपटियां तेरी लटों के नीचे  
अनार की फांक सी देख नड़ती हैं ॥

- ४ तेरा गला दाऊद के गुम्मट के समान है जो  
कुर्सी पर कुर्सी बना हुआ हो

और जिस पर हजार ढालें टंगी हुई हो  
सब ढालें शूरवीरों की हैं ॥

- ५ तेरा दोनों छातियां मृगी के दो जुड़वे बच्चा के  
सरीखे हैं

जो सोसन फूला के बीच चरते हैं ॥

- ६ जब लो दिन ठहरा न हो और छाया लम्बी होते  
हांते मिट न जाए

तब लो में गन्धरस के पहाड़  
और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा ॥

- ७ हे मेरी प्यारी तू सर्वाङ्ग सुन्दरी है  
तुझ में कुछ पय नहीं ॥

हे दुल्हन तू मेरे संग लवानोन से  
मेरे संग लवानोन से चल  
तू अमाना की चोटी पर से  
शनीर और हेमोन की चोटी पर से  
स्त्रियों की गुफाओं से  
चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर ॥  
हे मेरी बहिन हे मेरी दुल्हन तू ने मेरा मन ९  
मोह लिया

तू ने अपनी आंखों की एक ही चितवन से  
और अपने गले की एक ही कण्ठी से मेरा हृदय  
मोह लिया है ॥

हे मेरी बहिन हे मेरी दुल्हन तेरा प्यार क्या ही १०  
मनोहर है

तेरा प्यार दाखमधु से क्या ही उत्तम है  
और तेरे तेलों का सुगन्ध सब प्रकार के मसालों  
के गन्ध से क्या ही अच्छा है ॥

हे दुल्हन तेरे होठों से मधु टपकता है ११

तेरी जीभ के नाँचे मधु और दूध रहते हैं

और तेरे बच्चों का सुगन्ध लवानोन का सा है ॥  
मेरी बहिन मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी १२  
किवाड़ बन्द किया हुआ सोता और छाग लगाया  
हुआ करना है ॥

तेरे अकुर उत्तम फलवाली अनार की बारी से हैं १३

मेंहदी और जटामासी  
जटामासी और केसर १४  
लोबान के सब भाँति के पेड़ों समेत बच्च और  
दारचीनी

गन्धरस अगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगन्धद्रव्य  
होते हैं ॥

तू बारियों का सोता १५  
फूटते हुए जल का कूआ

और लवानोन से बढ़ती हुई धाराएं हैं ॥

हे उत्तरहिया जाग और हे दाखलनाहिया चली आ १६

मेरी बारी पर बहो जिस से उस का सुगन्ध फैले  
मेरा प्यार अपनी बारी में आकर

अपने उत्तम उत्तम फल खा ले ॥

५. हे मेरी बहिन हे मेरी दुल्हन मैं अपनी  
बारी में आया हूँ

मैं ने अपना गन्धरस और बलसान चुन लिया  
मैं ने मधु समेत छप्ता खा लिया  
मैं ने दूध और दाखमधु पी लिया  
हे बहिनो तुम भी खाओ

- हे प्यारी पियो मनमाना पियो ॥  
 २ मैं सोती हुई तो थी पर मेरा मन जागता था  
 मेरे प्यारे का बोल सुन पत्र वह खटखटाता है  
 हे मेरी बहिन हे मेरी प्यारी हे मेरी कबूतरी हे  
 मेरी त्रिमल मेरे लिये द्वार खोल दे  
 क्योंकि मेरा सिर आंस से मरा है  
 और मेरी लट्टें रात में गिरी हुईं बून्दों से भीगी हैं ॥  
 ३ मैं ने अपनी कुर्त्ती उतार डाली मैं स्योंकर उसे  
 फिर पहिनुं  
 मैं ने अपने पांज घाये मैं स्योंकर उन्हें फिर मैला  
 करूं ॥  
 ४ मेरे प्यारे ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर  
 डाल दिया  
 तब मेरा हृदय उस के कारण धवराने लगा ॥  
 ५ मैं अपने प्यारे के लिये द्वार खोलने को उठी  
 और मेरे हाथों से गंधरस  
 और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस  
 बेण्डे की मूठों पर टपकता था ॥  
 ६ मैं ने अपने प्यारे के लिये द्वार तो खोला  
 पर मेरा प्यारा फिरके चला गया था  
 जब वह बोलता था तब मेरा जी ठिकाने न रहा  
 मैं ने उस को ढूँढा पर न पाया  
 मैं ने उस को पुकारा पर वह न बोला ॥  
 ७ जो पहरेण नगर में घूमते हैं सो मुझ को मिले  
 उन्हों ने मुझ का पीटकर घायल किया  
 शहरपनाह के पहरेणों ने मेरी चद्दर छीन ली ॥  
 ८ हे यरूशलेम की स्त्रियो मैं तुम को सोह  
 धराकर कहती हूँ कि यदि मेरा प्यारा तुम को मिले  
 तो उस को बताओ कि मैं प्रेम से बिबश हूँ ॥  
 ९ हे स्त्रियों में सुन्दरी  
 तेरा प्यारा और प्यारों से किस बात में उत्तम है  
 तेरा प्यार और प्यारों से किस बात में उत्तम है  
 कि तू हम को ऐसी सोह धराती है ॥  
 १० मेरा प्यारा गोरा और लाल सा है  
 वह दस हजार में उत्तम है ॥  
 ११ उस का सिर चेखा कुन्दन सा है  
 उस की लट्टें लटकी हुई और काले कौवे की नाई  
 काली हैं ॥  
 १२ उस की आँखें नदी तीर के कबूतरों के  
 समान हैं  
 वे दूध से धोई हुई और अपने गालकों में ठीक  
 जड़ी हुई हैं ॥

- उस के गाल बलसान की कियारियों १३  
 वा सुगंधी पेड़ लगाये हुए टोलों समान हैं  
 उस के होठ सोसन फूल हैं जिन से टपकता हुआ  
 गंधरस टपकता है ॥  
 उस के हाथ फीरोजा जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं १४  
 उस का पेट नीलमों से जड़े हुए हाथीदांत का  
 है ॥  
 उस की टांगें कुन्दन की कुर्लियों पर बैठाये हुए १५  
 संगमरमर के खंभे हैं  
 वह देखने में लवानान और देवदार वृक्षों सा  
 उत्तम है ॥  
 उस का बोल<sup>१</sup> अति मधुर है वह सर्वाङ्ग १६  
 मनभावना है  
 हे यरूशलेम की स्त्रियो  
 मेरा प्यारा और संगी ऐसा ही है ॥  
 ६. हे स्त्रियों में सुन्दरी  
 तेरा प्यारा कहाँ गया  
 तेरा प्यारा कहाँ चला गया  
 हम तेरे संग होकर उस को ढूँढें ॥  
 मेरा प्यारा अपनी बारी अर्थात् बलसान की किया- २  
 रियों में उतर गया  
 कि बारी में अपनी भेड़बकरियां चराए और  
 सोसन फूल तोड़े ॥  
 मैं अपने प्यारे की हूँ और वह मरा है ३  
 वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता  
 है ॥  
 हे मेरी प्यारी तू तिसा की नाई सुन्दरी ४  
 यरूशलेम के समान फबनेहारी  
 और भण्डे फहराती हुई सेना की सरोखी भयंकर  
 है ॥  
 अपनी आँखें मेरी ओर से फेर ले ५  
 क्योंकि मैं उन से हार गया हूँ  
 तेरे बाल ऐसी बकरियों के भुण्ड के समान हैं  
 जो गिलाद के ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हैं ॥  
 तेरे दांत ऐसी भेड़ों के भुण्ड के समान हैं ६  
 जो नहाकर ऊपर आती हैं  
 और जुड़वां जुड़वां होती हैं  
 और उन में से किसी का साथी नहीं जाता रहा ॥  
 तेरी कनपटियां तेरी लट्टों के नीचे  
 अनार की फांक सी देख पड़ती हैं ॥

- ८ साठ रानियां और अस्सी सुरैतिनें  
और असंख्य कुमारियां हैं ॥
- ९ मेरी कबूतरी मेरी विमल एक ही है  
वह अपनी माता की एकली है  
वह अपनी जननी की तुलारी है  
स्त्रियों ने उस को देखकर धन्य माना  
रानियों और सुरैतिनों ने देखकर उस की प्रशंसा  
की ॥
- १० यह कौन है जो पह की नाई दिखाई देती  
वह चंद्रमा के समान सुन्दर  
सूर्य के सरीखे निर्मल  
और भण्डे फहराती हुई सेना की रीति भयंकर  
देख पड़ती है ॥
- ११ मैं अखरोट की भारी में उतर गई  
कि नाले में के अंकुर देखूं  
और देखूं कि दाखलता में कली लगी  
और अनारों में के फूल खिल गये हैं कि नहीं ॥
- १२ तब अपने अनजाने मैं मन ही मन  
अपने कुलीन जाति भाइयों के रथ में बैठाई गई ।
- १३ लौट आ लौट आ  
हे शूलम्भिन<sup>१</sup> लौट आ लौट आ कि हम तुझ  
पर दृष्टि करें ।  
शूलम्भिन<sup>१</sup> मैं तुम किस बात पर दृष्टि करोगी  
मानो महनेम के नाच पर ॥
७. हे कुलीन पुरुष की पुत्री तेरे पांव पनाहियों  
में क्या ही सुन्दर हैं  
तेरी जांघों की गोलाई ऐसे अलंकारों के समान है  
जो कारीगर के बनाये हुए हों ॥
- १ तेरी नाभि मानो गोल कटोरा है  
जो मसाला मिले हुए दाखमधु से पूर्ण हो ।  
तेरा पेट सोसन फूलों से घिरे हुए  
गेहूँ के ढेर के समान है ॥
- ३ तेरी दोनों छातियां  
मृगी के दो जुड़ीये बच्चों के समान हैं ॥
- ४ तेरा गला हाथीदांत का गुम्मत है  
तेरी आंखें हेराबोन के उन कुण्डों के समान हैं  
जो ब्रह्मीम के फाटक के पास हैं ।  
तेरी नाक लबानोन के उन गुम्मत के सरीखी है  
जिस का मुँह दमिश्क की ओर है ॥
- ५ तेरा सिर कम्मेल के समान है

- और तेरे सिर के लटके हुए बाल अर्गवानी रंग के  
कपड़े के समान हैं  
राजा उन लटकों में बंधुआ हो गया है ॥
- हे प्रिये<sup>२</sup> तू सुख के लिये  
कैसी सुन्दर और कैसी मनाहर है ॥
- तेरी डील खजूर की सी  
और तेरी छातियां दाख के गुच्छों सी देख  
पड़ती हैं ॥
- मैं ने कहा मैं खजूर पर चढ़कर  
उस की डालियों को पकड़ूंगा।  
तब तेरी छातियां दाख के गुच्छों के  
और तेरा नाक का सुगंध सेबों के समान  
ठहरी  
और तेरा बाल<sup>३</sup> उत्तम दाखमधु से मेल  
खाता है  
जो मेरे प्यारे के लिये ठीक उण्डेला जाए  
और सोये हुआओं के होठों में भी धीरे धीरे बहे<sup>४</sup> ॥  
मैं अपने प्यारे की हूँ  
और उस की लालसा मेरी ओर है ॥
- हे मेरे प्यारे चल हम मैदान में निकल जाएं  
और गांवों में रात बिताएं ॥
- हम सबेरे उठकर दाख की बारियों में चलें  
हम देखें कि दाखलता में कली लगी और फूल  
खिले  
और अनार फूले हैं वा नहीं ।  
वहां मैं तुझ को अपना प्यार दिखाऊंगी<sup>५</sup> ॥  
दोदाफलों की सुगंध आ रही है  
और हमारे द्वारों पर क्या नये क्या पुराने सब  
भांति के उत्तम फल हैं  
जो मैं ने हे मेरे प्यारे तेरे लिये रख छोड़े हैं ॥
८. भला होता कि तू मेरे भाई के समान  
होता जिस ने मेरी माता की  
छातियों को पिया  
तो मैं तुझे बाहर भी पाकर चूमती  
और कोई मेरी निन्दा न करता ॥  
मैं तुझ को अपनी माता के घर ले चलती  
और तू मुझ को सिखाता  
मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाखमधु  
और अपने अनारों का रस पिलाती ॥

(१) अर्थात् शान्तिवाली ।

(२) मूल में हे प्रेम । (३) मूल में तालू । (४) मूल में चले ।  
(५) मूल में हूंगी ।

- ३ उस का बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता  
और वह अपने दाहिने हाथ से मुझे आलिंगन  
करता ॥
- ४ हे यरूशलेम की लिये मैं तुम को सोह धराती हूँ  
कि जब लौ प्रेम आप से न उठे  
तब लौ उस को न उसकाओ न जगाओ ॥
- ५ यह कौन है जो अपने प्यारे पर उठगी हुई  
जंगल से चली आती है  
सेब के पेड़ के नीचे मैं ने तुम्हें जगाया  
वहीं तेरी माता ने तुम्हें जन डाला  
वहाँ तेरी जननी को पीड़ें लगीं ॥
- ६ मुझे मुद्रा की नाई अपने हृदय पर  
मुझे मुद्रा की नाई अपनी बांह पर रख  
क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी  
और जलन अधोलोक के समान निटुर है ।  
उस की लपट आग की सी लपट  
बरन याह ही की ज्वाला है ॥
- ७ प्रेम तो बहुत जल से भी नहीं बुझता  
और न महानदों में भी डूब सकता है  
चाहे कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम  
की सन्ती दे  
तौभी वह अत्यन्त तुच्छ ठहरगी ॥
- ८ हमारी एक छोटी बांहन है  
जिस की छातियां अभी नहीं उभरीं  
जिस दिन हमारी बहिन के ब्याह की बात लगे

- उस दिन हम उस के लिये क्या करें ॥  
यदि वह शहरपनाह ठहरे १  
तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाएंगे  
और यदि वह फाटक का किवाड़ ठहरे  
तो हम उस पर देवदार की लकड़ी के पट्टे  
लगाएंगे ॥  
मैं तो शहरपनाह और मेरी छातियां उस १०  
के गुम्मत ठहरीं  
इसलिये मैं अपने प्यारे की दृष्टि में शान्ति  
पानेहारी सी हो गई हूँ ॥  
बाल्हामोन में सुलैमान की दाख की बारी ११  
हुई  
उस ने वह दाख की बारी रखवालों को सौंपी  
और एक एक रखवाले को उस के फलों के लिये  
चांदी के हजार हजार टुकड़े देने पड़े ॥  
मेरी निज दाख की बारी मेरे साम्हने है १२  
हे सुलैमान हजार तो तुम्हीं को  
और उस के फल के रखवालों का दो सौ  
मिलेंगे ॥  
तू जो बारखा में रहती है १३  
संगी लोग तेरा बोल सुनने का ध्यान दे रहे हैं  
उसे मुझ को सुना ॥  
हे मेरे प्यारे फुर्ती कर १४  
और सुगन्धद्रव्यों के पहाड़ों पर  
चिकारे वा जवान हरिन के सरोखा बन ॥

## यशायाह नाम पुस्तक ।

१. आपोस के पुत्र यशायाह का दर्शन  
जिस को उस ने यहूदा  
और यरूशलेम के विषय में उजिय्याह योताम आहाज  
और हिजकिय्याह नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में  
पाया ॥
- २ हे स्वर्ग सुन और हे पृथिवी कान लगा क्योंकि  
यहांवा कहता है कि मैं ने बालबच्चों का पालन पोषण  
किया और उन को बढ़ाया भी और उन्होंने ने मुझ से

- बलवा किया है । तैल तो अपने मालिक को और गदहा ३  
अपने स्वामी की चरनी को पहिचानता है पर इस्राएल  
मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा सोच विचार नहीं करती ॥  
हाथ यह जाति पाप से कैसी भरी है यह समाज ४  
अधर्म से कैसा लदा हुआ है इस वंश के लोग कैसे  
कुकर्मी हैं और ये लड़केबाले कैसे बिगड़े हुए हैं उन्होंने ने  
यहांवा को छोड़ दिया और इस्राएल के पवित्र को तुच्छ  
जाना है वे बिराने बनकर पीछे हट गये हैं । तुम क्यों ५



- अधिक बलवा कर करके अधिक मार खाना चाहते हो तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा सारा  
 ६ हृदय दुःख से भरा है। नख से सिल लों कहीं कुछ आरोग्यता नहीं चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए थाव हैं जो न दबाये न बांधे न तेल लगाकर  
 ७ नरमाये गये हैं। तुम्हारा देश उजड़ा हुआ तुम्हारे नगर फूँके हुए हैं तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही खा रहे हैं वह परदेशियों से नाश किये हुए देश के  
 ८ समान उजाड़ है। और सिथ्योन<sup>१</sup> दाख की बारी में की भोंपड़ी वा ककड़ी के खेत में की छपरिया वा घिरे हुए  
 ९ नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सरीखे  
 १० उधरते। हे सदोम के न्याय्यो यहोवा का वचन सुनो हे अमोरा की प्रजा हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान  
 ११ लगा। यहोवा यह कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेल-बलि मेरे किस काम के हैं मैं तो मेढों के होमबलियों से और पोसे हुए पशुओं की चर्बी से अथा गया हूँ मैं बछड़ों  
 १२ वा भेड़ के बच्चों वा बकरों के लोहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जो अपने मुँह मुझे दिखाने के लिये आते और मेरे आंगनों को पाव से रौंदते हो यह तुम से कौन  
 १३ चाहता है। व्यर्थ अन्नबलि फिर मत ले आओ धूप से मुझे घिन आती है नये चाँद और विश्रामदिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझ  
 १४ से सहा नहीं जाता। तुम्हारे नये चाँदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ वे सब मुझे भार जान पड़ते हैं मैं उन को सहते सहते उकता गया।  
 १५ जब तुम मेरी और हाथ फैलाओ तब मैं तुम से मुख फेर<sup>२</sup> लूंगा तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तौभी मैं तुम्हारी न सुनूँगा क्योंकि खून करने का दोष तुम्हें लगा  
 १६ है<sup>३</sup>। अपने को धोकर पवित्र करो मेरी आँसों के साम्हने से अपने बुरे कामों को दूर करो आगे को बुराई करना  
 १७ छोड़ दो, भलाई करना सीखो यज्ञ से न्याय करो<sup>४</sup> उपद्रवी को सुधारो अपमूए का न्याय चुकाओ विधवा का मुकद्दमा लड़ो ॥  
 १८ यहोवा कहता है कि आओ हम आपस में वादविवाद करें तुम्हारे पाप चाहे लाही रङ्ग के हो तौभी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे और चाहे लाल रङ्ग के हो तौभी

वे ऊन के सरीखे हो जाएंगे। यदि तुम प्रसन्न होकर मेरी १९ मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि २० तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे यहोवा का यही वचन है ॥

जो नगरी सती थी सो क्योंकर व्यभिचारिन हो गई २१ वह न्याय से भरापुरी तो थी और धर्म ही उस में पाया जाता तो था पर अब उस में हत्यारे ही पाये जाते हैं। तेरा चाँदी धातु का मैल हो गई तेरे दाखमधु में पानी मिल २२ गया है। तेरे हाकिम हठाले और चोरों से मिले हैं वे सब २३ के सब घूस खानेहारे और भेंट के लालची हैं और न तो वे अपमूए का न्याय करते और न विधवा का मुकद्दमा अपने पास आने देते हैं ॥

इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इस्राएल के शक्ति- २४ मान की यह वाणी है कि सुनो मैं अपने शत्रुओं को दूर कर के शांति पाऊँगा और अपने बैरियों से पलटा लूँगा। और मैं तुम्ह पर फिर हाथ बढ़ाकर तेरा धातु का मैल पूरी २५ रीति से<sup>५</sup> भस्म करूँगा और तेरा रांगा पूरा पूरा दूर करूँगा। और मैं तुम्ह में पहिले की नाई न्यायी और २६ आदि काल के समान मंत्री फिर ठहराऊँगा उस के पीछे तु धर्मपुरी और सती नगरी कहाएगी। और सिथ्योन न्याय २७ के द्वारा और जो उस में फिरंगे सो धर्म के द्वारा छुड़ा लिये जाएंगे। पर बलवाइयो और पापियों का एक संग २८ नाश होगा और जिन्हों ने यहोवा का त्याग है उन का अन्त हो जाएगा। और जिन बांजवृक्षों से तुम प्रीति २९ रखते थे उन से वे लजित होंगे जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उन के कारण तुम्हारे मुँह काले होंगे। क्योंकि तुम पत्ते मुझाये हुये बांजवृक्ष के और बिना जल ३० की बारी के समान हो जाओगे। और बलवान तो सन ३१ और उस का काम चिंगारी बनेगा सो वे दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझानेहारा न होगा ॥

२. आमेस के पुत्र यशायाह का वचन जिस का दर्शन उस ने यहूदा और यरुशलैम के विषय पाया ॥

ऐसा होगा कि अन्त के दिनों में यहोवा के भवन का २ पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊँचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा की नाई उस की ओर चलेंगे। और बहुत देशों ३ के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं तब वह हम को अपने मार्ग सिखाएगा और

(१) मूल में सिथ्योन की बेटा।

(२) मूल में छिपा। (३) मूल में तुम्हारे हाथ खून से भरें हैं।

(४) मूल में न्याय पूछो।

(५) मूल में मानो खार डालकर।

हम उस के पथों पर चलेंगे क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिन्धोन से और उस का वचन यरूशलेम ४ से निकलेगा । वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा सो वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भाइयों के हँसिया बनाएंगे तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग भागे का युद्ध की विद्या न सीखेंगे ॥

५ हे याकूब के घराने आ हम यहोवा के प्रकार में चले । तू ने अपना प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है क्योंकि वे पूर्वजों के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलायनों का नाई टोना करते हैं और परदेशियों ७ के साथ हाथ मिलाते हैं । उन का देश चांदी और सोन से भरपूर है और उन के रखे हुए धन की सीमा नहीं उन का देश घोड़ों से भरपूर है और उन के रथ अनगिनत हैं । उन का देश मूरतों से भरा है वे अपने हाथों का बनाई हुई वस्तुओं का जिन्हें उन्होंने अपनी अगुलियों ९ से संवारा है दण्डवत् करते हैं । साधारण मनुष्य भुक्त और बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं इस कारण उन का चमत्कार १० न कर । यहोवा के भय के कारण और उस का बड़ाई के प्रताप के मारे चटान में घुस और मिट्टी में छिप जा । ११ क्योंकि आदमियों की घमण्डभरी आंखें नीची का जाएंगी और मनुष्यों का घमण्ड दूर किया जाएगा और उस दिन १२ केवल यहावा ऊंचे पर विराजमान रहेगा । क्योंकि सनाओं के यहावा का एक दिन सब फूले हुए और ऊंचे १३ और उन्नत पर आता है और वे नवाये जाएंगे । और लथानेन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और उन्नत हैं १४ और बाशान के सब बाजबूतों पर, और सब ऊंचे पहाड़े १५ और सब उन्नत पहाड़ियों पर, और सब ऊंचे गुम्मतों और १६ सब दृढ़ शहरपनाहों पर, और तशाश के सब जहाजा और १७ सब सुन्दर चित्रकारी पर वह दिन आता है । और आदमी का गन्ध निकाला जाएगा और मनुष्यों का घमण्ड दूर किया जाएगा और उस दिन केवल यहावा ऊंचे पर विराजमान १८, १९ रहेगा । और मूरतें सब की सब विलाय जाएंगी । और जब यहावा पृथिवी के कंपान के लिये उठेगा तब उस क भय के कारण और उस का बड़ाई के प्रताप के मारे लोग २० चटानों की गुफाओं और भूमि के बिचों में घुसेंगे । उस दिन लोग अपनी चांदी सोन की मूरतों का जिन्हें उन्होंने दण्डवत् करने के लिये बनाया है छछुन्दरों और चम- २१ गीदड़ों के आगे फेंकेंगे, कि यहोवा के भय के कारण और उस की बड़ाई के प्रताप के मारे चटानों की दरारों

(१) मूल में पूरब से भर गये ।

और टांगों के छेदों में घुस जाएं जब कि वह पृथिवी के कंपाने का उठेगा । मनुष्य जिस की सांस उस के नथनों २२ में है उस से परे रहे वह किस लेखे में है ॥

### ३. सुना प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम

के और यहूदा के सब प्रकार का आधार दूर करेगा अर्थात् अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार, वार और योद्धा को न्यायी २ और नबी को भावी कहनेद्वारे और पुरनिये को, पचास सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को ३ मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोन्हे को भी दूर करेगा । और मैं लड़कों को उन के हाकिम कर दूंगा और ४ बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे । और प्रजा के लोग आरस में एक दूसरे पर अंधेर करेंगे और लड़का पुरनिये से और नीच जन रईस से ढिंढाई करेगा । उस समय कोई अपने ६ पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा कि तेरे पास तो कपड़े हैं सो तू हमारा न्यायी हो जा और यह उजाड़ तेरे हाथ में हो । उस समय वह बोल उठेगा कि ७ मैं चंगा करनेद्वारा न हूंगा क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न कपड़े सो मुझ को प्रजा का न्यायी मत ठहराओ । यरूशलेम तो डगमगाता और यहूदा गिरता है ८ क्योंकि उन के वचन और उन के काम यहोवा के विरुद्ध हैं कि उस की तेजोमय आंखों के साम्हने खलवा करें । उन का चिह्न ही उन के विरुद्ध साक्षी देता है वे सदा- ९ मियों की नाई अपने पाप को आप ही खलानते और नहीं छिपाते । उन पर हाय क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप की है । धर्मियों के विषय कहो कि भला १० होगा क्योंकि वे अपने कामों का फल मोगेंगे । दुष्ट पर हाय उस का बुरा होगा क्योंकि उस के कामों का फल उस को मिलेगा । मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और १२ स्त्रियां उस पर प्रभुता करती हैं हे मेरी प्रजा तेरे अगुए तुझे भटका देते और तेरे चलने का मार्ग मिटा देते हैं ४ । यहोवा देश देश के लोगों से मुकद्दमा लड़ने और उन का १३ न्याय करन के लिये खड़ा है । यहोवा अपनी प्रजा के १४ पुरनियों और हाकिमों के साथ यह विवाद करेगा कि तुम ही ने बारी की दाख ला डाली है और दीन लोगों का धन तुम लूटकर अपने घरों में रखते हो । तुम कौन १५ हो कि मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ॥

(२) मूल में लाठा और लाठी ।

(३) मूल में उन के प्राण । (४) मूल में निगल लेते हैं ।

(५) मूल में दीन लोगों के मुंह को ।

१६ यहोवा ने यह भी कहा है कि सियोन की स्त्रियां जो घमण्ड करतीं और सिर ऊंचे किये आंखें, मटकाती और घुंघुंरुओं को छुमछुमाती हुईं उमुक उमुक चलती हैं, १७ इसलिये प्रभु यहोवा उन के चोखे को गंजा करेगा १८ और उन के तन को उधरवाएगा । उस समय प्रभु घुंघु- १९ रूओं जालियों चंद्रहारों, मुमकों कड़ेां घुंघटों, २० पगड़ियों पैकरियों पट्टकों सुगन्धपात्रों गण्डों, २१, २२ अंगूठियां नखों, सुन्दर वस्त्रों कुर्तियों चह्रों बटुओं, २३ दर्पणों मलमल के वस्त्रों बन्दिया दुपट्टों इन सभी २४ की शोभा का दूर करेगा । और सुगंध की सन्ती सड़ाहट होगी और सुन्दर कर्धनी की सन्ती बंधन की रस्ती और गुन्धे हुए बालों की सन्ती गंजापन और सुन्दर पट्टके की सन्ती टाट की पेटी और सुन्दरता की संती दाग २५ होगा । तुम में के पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में २६ मारे जाएंगे । और उस के फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा ? और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी ? उस समय सात स्त्रियां एक पुरुष को ७ पकड़कर कहेंगी कि हम रोटी तो अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी केवल हम तेरी कहलाए हमारी नामधराई दूर कर ॥

२ उसी समय ह्साएल के बच्चे हुआं के लिये यहावा का पल्लव भूषण और महिमा ठहरेगा और भूमि की ३ उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी । और जो कोई सियोन में बचा रहे और जो कोई यरूशलेम में बचा रहे अर्थात् यरूशलेम में जितनों के नाम जीवनपत्र में ४ लिखे हों सो पवित्र कहाएंगे । यह तब हागा जब प्रभु न्याय करनेहारे और मरम करनेहारे आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को निकाल ५ चकेगा और यरूशलेम के बीच से खून को दूर कर चुकेगा । ५ तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उस के सभास्थानों के ऊपर दिन को तो धूप का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा ६ और सारे विभव के ऊपर मण्डप छाया रहेगा । और दिन को घाम से बचाने के लिये और आंधी पानी और झड़ी में शरण और आड़ के लिये एक तंबू हागा ॥

५. अब मैं अपने प्रिय के लिए उस की दाख की बारी के विषय गीत गाऊं ।

एक अति उपजाऊ टीले पर १ मेरे प्रिय की एक दाख की २ बारी थी । उस ने उस की मिट्टी गोड़ दी और उस के

(१) मूल में उस के फाटक ठण्डी सांस भरेंगे और विलाप करेंगे । (२) मूल में यह शय्य होकर भूमि पर बैठेगी । (३) मूल में जीवन के लिये । (४) मूल में मल को धो । (५) मूल में पक तेल के बेटे सींग पर ।

पत्थर ब्रीनकर उस में उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई और बीच में एक गुम्मत बनाया और उस में दाखरस के लिये एक कुण्ड भी खोदा तब वह दाख की आशा करने तो लगा पर उस में निकम्मी ही दाखें लगीं । सो अब हे यरूशलेम के निवासियो और हे यहूदा ३ के मनुष्यों मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो । मेरी दाख की बारी के लिये और क्या करने को ४ रह गया जो मैं ने उस के लिये न किया हो फिर न्याय कारण है कि जब मैं ने दाख की आशा की तब उस में निकम्मी दाखें लगीं । अब मैं तुम को जताता हूं कि ५ अपनी दाख की बारी से न्याय करूंगा मैं उस के काटे-वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उस की भीत को ढा दूंगा कि वह रेंदी जाए । मैं उसे उजाड़ दूंगा और वह न तो फिर छांटी और न ६ गोड़ी जाएगी और उस में भाति भाति के कटीले पेड़ उगेंगे और मैं मधों को आशा दूंगा कि उस पर जल न बरसाना । क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी ७ ह्साएल का धराना और उस का मनभाऊ पौधा यहूदा के लोग हैं और उस ने उन में न्याय की आशा तो की पर अन्याय देख पड़ा उस ने धर्म की आशा तो की पर उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी ॥

हाय उन पर जो घर से घर और खेत से ८ खेत यहां लों मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओ । सेनाओं ९ के यहोवा ने मेरे कानों में कहा है कि निश्चय बहुत से घर तन हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुन्दर घर निर्जन हो जाएंगे । और दस बीबे की दाख की बारी से १० एक ही बत दाखमधु मिलेगा और होमेर भर के बीज से एक ही एण अन्न उत्पन्न होगा ॥

हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने ११ लगते हैं और बड़ी रात लों दाखमधु पीते रहते जब लों उन को गर्मी चढ़ न जाए । उन की जीवनारों में बीया १२ सारंगी डफ बांसली और दाखमधु ये सब पाये जाते हैं और वे यहोवा के काय्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उस के हाथों के काम को नहीं देखने । इसलिये मेरी १३ प्रजा अज्ञानता के कारण बहुआई में गई और उस में के प्रतिष्ठित पुरुष मूखों और साधारण लोग प्यासों मरे । इसलिये अबेालोक ने अत्यन्त लालसा करके १४ अपना मुंह बिना पारमाण्य पसारा और उन का विभव और भीड़ भाड़ और हैरा और आनन्द करनेहारे सब के सब उस के मुंह में जा पड़ते हैं । साधारण मनुष्य १५ दबाये और बड़े मनुष्य नीचे किये जाते और ऊंचे

- १६ पदवालों की आँखें नीची की जाती हैं । और सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान् ठहरता और
- १७ पवित्र धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है । और मेड़ों के बच्चे तो मानों अपने खेत में चरेंगे पर हृष्टपुष्टों के उजड़े स्थान पर देशियों को चराई के लिए मिलेंगे ॥
- १८ हाय उन पर जो अनर्म्म के अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं,
- १९ और कहते हैं कि वह फुर्ती तो करे और अपने काम को शीघ्र कर डाले कि हम उस को देखें और इस्राएल के पवित्र की युक्त प्रगट और पूरी हो जाए कि हम उस को समझें ॥
- २० हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते और अधियार को उजियाला और उजियाले को अधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं ॥
- २१ हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में शानी और अपने लेखे बुद्धिमान् हैं ॥
- २२ हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा के तंज बनाने में बहादुर हैं, और घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं । इस कारण जैसे अग्नि की ला से खंटी भस्म होती और सुखी घास जलकर बैठ जाती है वैसे ही उन की जड़ सड़ जाएगी और उन के फूल धूल होकर उड़ जाएंगे क्योंकि उन्हों ने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है ॥
- २५ इस कारण यहोवा का कोप अपनी प्रजा पर भड़का है और उस ने उन के विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उन को मारा है और गहाड़ काँच उठे और लोगों की लोथें सड़की के बीच कूड़ा सी पड़ी हैं । इतने पर भी उस का कोप शान्त नहीं हुआ उस का हाय अब लों बढ़ा हुआ है । और वह दूर दूर की जातियों के लिये भरझा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उन को पृथिवी की क्षोर से बुलाएगा
- २७ देखो वे फुर्ती करके वेग आएंगे । उन में कोई थकने-हारा वा ठोकर खानेहारा नहीं कोई ऊँबने वा सोनेहारा नहीं किसी का फेंटा नहीं खुलता और किसी के जूतों का बन्धन नहीं टूटता । उन के तीर चोखे और उन के सभ धनुष चढ़ाये हुए हैं उन के घोड़े के खुर वज्र के से और रथों के पाँहये बवण्डर सरीखे हैं । वे सिंह वा जवान सिंह की नाईं गर्जते हैं वे गुराकर अहेर को

पकड़ लेते और उस को कुशल से ले भागते हैं और कोई उसे उन से नहीं छुड़ाता । उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन की नाईं गर्जेंगे और याद कोई देश की ओर देखे तो उसे अधकार और संकट देख पड़ेंगे और ज्योति मेचों से छिन्न जाएगी ॥

## ६. जिस बरस उजिय्याह राजा मर गया में

ने प्रभु को बहुत हाँ ऊँचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उस के वस्त्र के घेर से मन्दिर भर गया है । उस से ऊँचे पर साराप दिखाई देते हैं और उन के छुः छुः पंख हैं दो पंख से वे अपने मुँह को ढाँपे और दो से अपने पाँवों को ढाँपे हैं और दो से उड़ रहे हैं । और वे एक दूसरे से पुकार पुकारकर कह रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र है सारा पृथिवी उस के तेज से भरपूर है । और पुकारनेहारे के शब्द से डेवाँड़ियों की नेबें डोल उठीं और भवन धूप से भर गया । तब मैं ने कहा हाय हाय मैं मारा पड़ा क्योंकि मैं अशुद्ध होठवाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठवाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ और मैं ने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है । तब एक साराप हाथ में अंगारा लिये हुए जिसे उस ने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़ आया । और उस ने उस से मेरे मुँह को छूकर कहा देख इस ने तेरे होठों को छू लिया है सो तेरा अधर्म्म दूर हो गया और तेरे पाप ढाँपे गये । तब मैं ने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किस को मेजुँ और हमारी ओर से कौन जाएगा तब मैं ने कहा मैं हाजिर हूँ हुम्मे मेज । उस ने कहा जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहो पर न समझो और देखते तो रहो पर न बूझो । तू इन लोगों के मन को मोटे और उन के कानों को भारी कर और उन की आँखों को बन्द कर न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुनें और मन से बूझें और फिर और चंगे हो जाएं । तब मैं ने पूछा कि हे प्रभु कब लों उस ने कहा जब लों कि नगर यहाँ लों न उजड़ें कि उन में कोई रह न जाए और घर भी यहाँ लों न उजड़ें कि उन में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान न हो जाए, और यहोवा मनुष्यों को उस में से दूर न कर दे और उस के बहुत से स्थान निर्जन न हो जाएं । चाहे उस के निवासियों का दसवाँ अंश रह जाए तो वह फिर नाश किया जाएगा पर जैसे छोटे वा बड़े बाँज वृक्ष

को काट डालने पर भी उस का ठूँठ बना रहता है वैसे ही पवित्र वंश उस दसवें अंश का ठूँठ ठहरेगा ॥

### ७. यहूदा का राजा आहाज जो योताम

का पुत्र और उज्जियाह का पोता था उस के दिनों में अराम का राजा रसीन और इस्त्राएल का राजा रमल्थाह का पुत्र पेकह इन्हां ने यरूशलेम से लड़ने के लिये चढ़ाई तो की पर युद्ध करके उन से २ कुछ बन न पड़ा । और दाऊद के घराने को यह समाचार मिला था कि अरामियों ने एप्रैमियों से सन्धि की है और उन का और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे बन के वृद्ध वायु चलने से कांप जाते हैं ॥

३ तब यहोवा ने यशायाह से कहा अपने पुत्र शार्याशूब<sup>१</sup> को लेकर ऊपरला पोखरे की नाली के सिरे पर घोबियों के खेत की सड़क पर आहाज से भेंट करने के लिये जा । और उस से कह कि सावधान रह और शान्त हो और उन दोनों धंभा निकलती लुकटियों से<sup>२</sup>

अर्थात् रसीन के और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्थाह के पुत्र से मत डर और न तेरा मन कच्चा हो । क्योंकि अरामियों और रमल्थाह के पुत्र समेत एप्रैमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति विचारी है,

६ कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उस को बधरा दें और उस को अपने वश में लाकर<sup>३</sup> ताबेल के पुत्र ७ को राजा ठहरा दें । सो प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि ८ यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी । क्योंकि अराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है फिर एप्रैम का सिर शोमरान और शोमरोन का सिर रमल्थाह ९ का पुत्र है । पैसठ बरस के भीतर एप्रैम का बल टूट जाएगा और वह जाति बनी न रहेगी । यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे ॥

१०, ११ फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग चाहे वह गहिरे १२ स्थान का हो वा ऊपर का हो । आहाज ने कहा मैं नहीं १३ मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा न करूंगा । तब उस ने कहा हे दाऊद के घराने सुनो क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर १४ को भी उकता दोगे । इस कारण प्रभु आप ही तुम को

एक चिन्ह देगा सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगा और उस का नाम इम्मनूएल<sup>४</sup> रखेगी । वह १५ तब मन्खन और मधु खायेगा जब<sup>५</sup> वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जानेगा । क्योंकि उस से १६ पहिले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने जिस देश के दोनों राजाओं के विषय तु बधरा रहा है सो निर्जन हो जाएगा । यहोवा तुम्ह पर १७ और तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रैम यहूदा से अलग हो गया तब से वैसे दिन कमी नहीं आये अर्थात् अशशूर के राजा को ॥

उस समय यहोवा उन मन्खियों को जो मिस्र की १८ नहरों के उधर रहती हैं और उन मधुमन्खियों को जो अशशूर देश में रहती हैं सीटी बजाकर बुलाएगा । और वे १९ सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी<sup>६</sup> ढालों में और दांगों के दरारों में और सब भटकटैयों और सब चराइयों पर बैठ जाएंगी ॥

उसी समय प्रभु महानद के पारवाले अशशूर के २० राजारूपी भाड़े के छुरे से सिर और पांवों के रोएं मूड़ेगा उस छुरे से दाढ़ी भी पूरी मुंड जाएगी ॥

उस समय कोई एक कलोर और दो मेड़ों को २१ पालेगा । और वे इतना दूध देंगी कि वह मन्खन २२ खाया करेगा क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे सो सब मन्खन और मधु खाया करेंगे ॥

उस समय जिन जिन स्थानों में हजार टुकड़े चांदी २३ की हजार दाखलताएं हैं उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले पेड़ होंगे । तीर और धनुष लेकर लोग वहां २४ जाया करेंगे क्योंकि सारे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे । और जितने पहाड़ कुदाल से गोड़े जाते हैं उन सभी २५ पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा वे गाय बैलों के चरने के और मेड़ बकारियों के रौंदने के लिये होंगे ॥

### ८. फिर यहोवा ने मुक्त से कहा एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण

अक्षरों से<sup>६</sup> यह लिख कि महेशालाहशाबज<sup>७</sup> के लिये । और मैं विश्वाशयोग्य पुरुषों को अर्थात् ऊरिव्याह याजक २ और येबेरेक्याह के पुत्र जकर्याह को इस बात के साक्षी करूंगा । और मैं अपनी स्त्री<sup>८</sup> के पास गया और वह ३

(१) अर्थात् बच्चा बुधा मांग फिरेगा । (२) मूल में लुकटियों के पुच्छों से । (३) मूल में अपने निमित्त फाबकर ।

(४) अर्थात् ईश्वर हमारे संग है । (५) वा इस लिये कि । (६) मूल में मनुष्य के कलम से । (७) अर्थात् लूट शीघ्र आती किन जाना फुर्ती करता है । (८) मूल में नवियैन ।

- गर्भवती होकर पुत्र जनी तब यहोवा ने मुझ से कहा  
 ४ उस का नाम महेशालाकहाशबज रख । क्योंकि उस से  
 पहिले कि वह लड़का बप्पा और अम्मा पुकारना जाने  
 दर्मशक और शोमरान दोनो की धन संपत्ति लूटकर  
 अशशर का राजा बनने देश की मेजेगा ॥
- ५, ६ फिर यहोवा ने मुझ से सारा बार कहा कि, लोग  
 शीलोह के धीरे धीरे बहनेहारे सोते को निकम्मा जानते  
 हैं और रसीन के और रमलयाह के पुत्र के संग एका करके  
 ७ आनन्द करते हैं, इस कारण सुन प्रभु उन पर उस प्रबल  
 और गह्वरे महानद को अर्थात् अशशर के राजा को उस  
 के सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा वह अपने सारे  
 नालों को भर देगा और अपने सारे कड़ाइों से उपटकर  
 ८ बहेगा । और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते  
 बढ़ते वह उस पर चलेगा और गले लों पहुँचेगा हे  
 इम्मानुएल तेरा सारा देश उस के पंखों के फैलने से  
 ढंप जाएगा ॥
- ९ हे देश देश के लोगो हीरा करो तो करो पर  
 तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा हे पृथिवी के दूर दूर देश  
 के सब लोगो कान लगाकर सुनो अपनी अपनी कमर  
 कसो तो कसो पर तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा अपनी  
 कमर कसो तो कसो पर तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा ।
- १० युक्ति करो तो करो पर वह निष्फल हो जाएगी कड़ो तो कड़ो  
 पर तुम्हारा कहा ठहरेगा नहीं क्योंकि ईश्वर हमारे संग  
 ११ है । क्योंकि यहोवा इदता के साथ मुझ से बोला और  
 १२ इन लोगों की सी चाल चलने से बरज कर कहा, जिस  
 किसी बात को ये लोग राजद्रोह की गोष्ठी कहें उन को  
 तुम राजद्रोह की गोष्ठी न कहना और जिस बात से वे  
 १३ डरते उस से तुम न डरना और न भय खाना । सेनाओं  
 के यहोवा ही को पवित्र जानना और उसी का डर मानना  
 १४ और उसी का भय खाना । और वह पवित्रस्थान ठहरेगा  
 पर इस्राएल के दोनो घरानों के लिये ठोकर का पत्थर  
 और ठेस की चटान और यरूशलेम के निवासियों के  
 १५ लिये फन्दा और फंसड़ी ठहरेगा । और उन में से बहुत  
 से लोग ठोकर खाकर गिरेगे और थायल भी ही जाएंगे  
 और फंसाकर पकड़े जाएंगे ॥
- १६ मेरे चेलों के बीच चितौनी का पत्र बांध दे और  
 १७ शिक्षा पर छाप कर । और मैं उस यहोवा की जो अपने  
 मुख को याकूब के घाने से फेरता है बाट जोहता  
 १८ रहूंगा और उसी पर आशा लगाये रहूंगा । देखो मैं  
 और जो लड़के यहोवा ने मुझे दिये हैं हम उसी सेनाओं

के यहोवा की ओर से जो सिन्धोन पर्वत पर बास किये  
 रहता है इस्राएलियों में चिन्ह और चमत्कार ठहरे हैं ।  
 जब लोग तुम से कहें कि ओभो और टोनहो के पास १९  
 जो गुनगुनाते और फुन्फुलाते हैं जाकर पूछो क्या  
 प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना  
 चाहिये और क्या जीवतो के लिये मुदों से पूछना चाहिये ।  
 व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा हो यदि वे लोग २०  
 इन के अनुहार न बोलें तो निश्चय उन के लिये पह न  
 फटेगा । और वे इस देश में क्रुशित और भूखे फिरते २१  
 रहेंगे और जब उन को भूख लगे तब वे क्रोध में आकर  
 अपने राजा और अपने परमेश्वर को कोसेंगे और चाहे  
 अपना मुख ऊपर की ओर करें, चाहे पृथिवी की ओर २२  
 दृष्टि करें तो उन्हें क्या देख पड़ेगा कि संकट और अंधि-  
 यारा और अंधकार मरां सकेती ही है और वे घोर अंध-  
 कार में ढकेल दिये जायेंगे ॥

### ६. तौमी जो सकेती में पड़ेगी वह अंधकार

में पड़ी न रहेगी पहिले तो उस  
 ने जबूलुन और नताली के देशों का अपमान किया पर  
 पीछे उस ने ताल की ओर यर्दन के पार की अन्यजातियों  
 के गालील की महिमा की । तब जो लोग अंधियारे में २  
 चलते थे उन्हें बड़ा उजियाला देख पड़ा जो लोग घोर  
 अंधकार से भरे हुए देश में रहे उन पर ज्योति चमकी  
 है । तू ने जाति को बढ़ाया तू ने उन को बहुत आनन्द ३  
 दिया वह तेरे साम्हने कटनी के समय का सा आनन्द  
 करेगी और ऐसी मगन होगी जैसे लोग लूट बांटने के  
 समय होते हैं । क्योंकि तू ने उस की गर्दन पर के भारी ४  
 जूए और उस के बहंगे के बांस और उस पर अंधेर करने-  
 हारे की लाठी इन सभों को ऐसा तोड़ दिया जैसे मिद्या-  
 नियों के दिन हुआ था । क्योंकि लड़नेहारे सिपाहियों के ५  
 जूते और लोहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर  
 हो जाएंगे ॥

क्योंकि हमारे लिये एक बालक उत्पन्न होता हमें ६  
 एक पुत्र दिया जाता है और वह प्रभुता का भार उठा-  
 एगा और उस का नाम अन्हुन और युक्ति करनेहारा  
 और पराक्रमी ईश्वर और अनन्तकाल का पिता और  
 शांति का प्रधान रक्खा जाएगा । दाऊद की राजगद्दी ७  
 पर उस की प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और उस की  
 शांति का अन्त न होगा इस लिये वह उस को इस

(३) वा तू ने बहुत आनन्द न दिया ।

(४) मूल में प्रभुता उस के कन्धे पर होगी ।

(५) मूल में प्रभुता की बढ़ती और शांति का अन्त नहीं ।

(१) अर्थात् लूट शोष आती छिन जाना कुर्ती करता है ।

(२) मूल में छिपाता ।

समय से लेकर सर्वदा लौ न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किये और संभाले रहेगा । सेनाओं के यहोवा की धुम के द्वारा यह काम हो जाएगा ॥

- ८ प्रभु ने याकूब के पास एक वचन कबला मेजा है  
 ९ और वह वचन इस्राएल पर घटा है । और सारी प्रजा को ऐप्रैमियों और शोमरोनवासियों को मालूम होगा जो गर्भ  
 १० और अहंकार करके कहते हैं, कि ईंटें तां गिर गई हैं पर हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे गूलर के वृक्ष तो कट गये हैं पर हम उन की सन्ती देवदारों से काम लेंगे ।  
 ११ इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा और उन के शत्रुओं को, आगे आराम को और पीछे पतिश्रितियों को उभारेगा और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे । इतने पर भी उस का कोप शान्त नहीं हुआ और उस का हाथ अब लों बढ़ा हुआ है ॥  
 १३ तौमी वे लोग अपने मारनेहारे सेनाओं के यहोवा की ओर नहीं फिरे और न उन्हीं ने उस को पूछा है ।  
 १४ इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को खजूर की डालियों और सरकड़े को एक ही दिन काट डालेगा । पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और  
 १५ झूठ सिखानेहारा नबी पूछ है । जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं सो इन को भटका देते हैं और जिन की  
 १७ अगुवाई होती है सो नाश हो जाते हैं । इस कारण प्रभु न तो इन के जवानों से प्रसन्न होगा और न इन के बगमूर बालकों और विधवाओं पर दया करेगा क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मों है और हर एक के मुख से फुहर बात निबलती है । इतने पर भी उस का कोप शान्त नहीं हुआ और उस का हाथ अब लों बढ़ा हुआ है ॥  
 १८ क्योंकि दुष्टता आग का नाई धधकती है वह ऊंटकटारों और कांटों को भस्म करती है वह धने वन में भी लगती है और उस से बढ़ा धुआं चकरा चकराकर  
 १९ उठता है । सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जल जाता और ये लोग आग का कौर होते हैं वे आपत  
 २० में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते । और दहिनी ओर कोई भोजनवस्तु छीनकर भी भूला रहेगा और बायें कोई खाकर भी तृप्त न होगा और वे अपनी  
 २१ अपनी बाँतों का मांस भी खाएंगे । मनश्शे ऐप्रैम को और ऐप्रैम मनश्शे को खा डालेगा और वे दोनों यहूदा के विरुद्ध होंगे । इतने पर भी उस का कोप शान्त नहीं हुआ और उस का हाथ अब लों बढ़ा हुआ है ॥

१०. हाथ उन न्यायियों पर जो अनर्थ

विचार करते हैं और उन पर जो उत्पन्न करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे कंगालों का न्याय भिगावें और मेरी प्रजा में के दीन लोगों का हक मारें और विधवाओं को लूटें और बगमूरों का माल अपना कर लें । दण्ड के दिन जब आधी वृत्त से आएगी तब क्या करोगे रक्षा के लिये कहा भाग जाओगी और अपने विभव को कहा रख जाओगी । वे केवल बंधुओं के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मारे हुएों से दबे पड़े रहेंगे । इतने पर भी उस का कोप शान्त नहीं हुआ और उस का हाथ अब लों बढ़ा हुआ है ॥

हे अशूर तू मेरे कोप का लठ है और तेरे हाथ में का सोंटा मेरा क्रोध है । मैं उस को एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उन के विषय उस को आज्ञा दूंगा कि वह छीन छोर करे और लूट ले और उन को उड़कों की कीच के समान लताड़े । पर उस की ऐसी मनसा न होगी और उस के मन में ऐसा विचार न होगा, क्योंकि उस के मन में यही होगा कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूँ । वह कहता है क्या मेरे सब हाकिम राजा के बराबर नहीं । क्या कलनो कर्कमीश के समान नहीं क्या हमात अर्पद के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं । जिस प्रकार मेरा हाथ मूरतों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिन की मूरतें यरुशलेम और शोमरोन की मूरतों से बढ़िया थीं, और जिस प्रकार मैं ने शोमरोन और उस की मूरतों से किया क्या मैं उसी प्रकार यरुशलेम से और उस की मूरतों से भी न करूँ ॥

इस कारण जब प्रभु सिव्योन पर्वत पर और यरुशलेम में अपना सारा काम कर चुकेगा तब मैं अशूर के राजा के गव की बातों का और उस की धमण्ड भरी आखों का पलटा दूंगा । उस ने तो कहा है कि अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैं ने यह काम किया है क्योंकि मैं चतुर हो गया हूँ सो मैं ने देश देश के सिवानों को हटा दिया और उन के रक्त्वे हुए धन को लूट लिया और ओर की नाई गरी पर विराजमानों को उतार दिया है । और देश देश के लोगों की धनसंपत्ति चिड़ियों के घोंसलों की नाई मेरे हाथ आई और जैसा कोई छोड़े हुए अण्डों को बटोर ले वैसे ही मैं ने सारी पृथिवी को बटोर लिया है और कोई पंख फड़फड़ाने वा चोंच खोलने वा चीं चीं करनेहारा न रहा । क्या कुल्हाड़ा उस के विरुद्ध जो उस से काटता हो डींग मारे वा भारी

(१) मूल में बन्धुओं के नीचे ।

उस के विरुद्ध जो उसे खींचता हो बढ़ाई मारे क्या सोटा अपने चलानेहारे को चलाए वा छुड़ी उसे उठाए जो काठ नहीं है ॥

- १६ इस कारण प्रभु अर्थात् सेनाओं का प्रभु उस राजा के दृष्टपुष्ट योद्धाओं को दुबले कर देगा और उस की सजी हुई सेना के जंगल में अपने कोप की आग लगाएगा<sup>१</sup> ।
- १७ और इस्राएल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इस्राएल का पवित्र तो ज्वाला ठहरेगा और वह उस के भाड़
- १८ भस्कार को एक ही दिन में भस्म करेगी । उस से उस के वन और फलदाई बारी को शोभा पूरी रीति से<sup>२</sup> नाश होगी और रोगी के क्षीण हो जाने पर जैसी दशा होनी है वैसी ही उस की होगी । और उस वन के इतने थोड़े वृक्ष बच जाएंगे कि लड़का भी उन्हें गन सकेगा ॥
- २० उस समय इस्राएल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारनेहारे पर फिर कभी टेरु न लगाएंगे यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है उसी
- २१ पर वे सन्चाई से टेक लगाएंगे । याकूब में से बचे हुए
- २२ लोग पराक्रमी ईश्वर की ओर फिरंगे । हे इस्राएल चाहें तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी बहुत होते तौभी निश्चय होता कि उन में से बचे ही लोग बचकर फिरंगे, और सत्यानाश पूरे धर्म के साथ<sup>३</sup> ठाना गया
- २३ है । क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा न सारे देश का सत्यानाश करना ठाना है ॥
- २४ इसलिये प्रभु सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि हे सियोन में रहनेहारी मेरी प्रजा अशशूर से मत डर चाहे वह सोटे से तुझे मारे और मिस्र की नाई<sup>४</sup> तेरे ऊपर छुड़ी उठाए । क्योंकि अब थोड़े ही दिनों के बातन पर मेरी जलन और कोप उन का सत्यानाश करके शान्त होगा<sup>५</sup> ॥
- २६ और सेनाओं का यहोवा उस के विरुद्ध कोड़ा खींचकर उस को ऐसा मारेगा जैसा उस ने अरेव नाम चटान पर मिस्रियों को मारा था और जैसा उस ने समुद्र पर मिस्रियों की ओर लाठी बढ़वाइ वैसा ही उस की
- २७ ओर भा बढ़ाएगा । से। उस समय उस का बोझ तेरे कंधे पर से और उस का जूझ तेरी गर्दन पर से उतरेगा और तेल<sup>६</sup> के कारण जूझा तोड़ डाला जाएगा ॥
- २८ वह अन्धकार का आया और मिश्रोन से होकर आगे बढ़ा है मिकमाश में वह अर्गना सामान रख रहा
- २९ है । वे भाटी से पार हो गये वे गंवा में टिक गये रामा

(१) मूल में और उस के ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी ।  
 (२) मूल में जीव से मांस लों । (३) मूल में धर्म से उमरकता ।  
 (४) मूल में करने से चुकेगा । (५) वा अभिवेक ।

परथरा उठा शाऊल का गिबा भाग गया । हे गल्लीम<sup>३०</sup> के निवासियों चिल्लाओ हे लैशा के लोंगो कान लगाओ हाथ बपुरे अनातोत । मदमेना मारा मारा<sup>३१</sup> फिरता है गेबीम के निवासी अपना अपना सामान भागने के लिये इन्ट्टा कर रहे हैं । आज ही के दिन<sup>३२</sup> वह नेब में टिकेगा वह सियोन<sup>३३</sup> पहाड़ पर और यरुशलैम की पहाड़ी पर हाथ हिलाकर भमकाएगा ॥

देखो प्रभु सेनाओं का यहांवा पेड़ों को भयानक<sup>३४</sup> रूप से छांट डालेगा और ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं सो नीचे किये जाएंगे । वह घने वन<sup>३५</sup> को लोह से काट डालेगा और लबालान एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा ॥

११ तब यिश्शै के ठूठ में से एक डाली फूटेगी और उस की जड़ में से एक

शाखा निकलकर फलवन्त होगी । और यहोवा का<sup>२</sup> आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा युक्ति और पराक्रम का आत्मा और यहांवा के ज्ञान और भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा । और उस को यहोवा का भय<sup>३</sup> सुगन्ध सा भाएगा और वह न तो मुंह देखा न्याय करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार खुकाव करेगा । पर वह कंगालों का न्याय धर्म से करेगा और<sup>४</sup> पृथिवी के नम्र लोगों के निये खराई से चुकाव करेगा और वह पृथिवी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूँड के भोंके से दुष्ट को मार डालेगा । और<sup>५</sup> उस की कटि का फेंटा धर्म और उस की कमर का फेंटा सचाई होगी । और हुंडार भेड़ के बच्चे के सग रहा<sup>६</sup> करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पोला हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और छोटा लड़का उन्हें फिराया करेगा । और गाय और रीछनी चरेगी और उन के बच्चे इन्ट्टे<sup>७</sup> बैठेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा । और<sup>८</sup> दूधपिउवा बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और नाग की बामी में दूध छुड़ाया हुआ लड़का हाथ डालेगा । मेरे<sup>९</sup> सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुःख देगा और न हानि करेगा क्योंकि पृथिवी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भरा रहता है<sup>१०</sup> ॥

उसी समय यिश्शै की जड़ देश देश के लोगों के<sup>१०</sup> भंडे के लिये खड़ी हो जाएगी और उसी के पास अन्य

(६) मूल में गल्लीम की बेंटी ।

(७) मूल में सियोन की बेंटी ।

(८) मूल में जैसा जल समुद्र को ढांपता है ।



जातियां चली आएंगी और उस का विश्रामस्थान तेजो-मय होगा ॥

- ११ उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर अपनी प्रजा के बच्चे हुआं को जोरह जाएंगे अशशूर और मिस्र और पनोस और कूश और एलाम और शिनार और इमात और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर
- १२ छुड़पगा । और वह अन्यजातियों के लिये झण्डा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुआं को और यहूदा के सब बिलखरी हुआं को पृथिवी की चारों दिशाओं से
- १३ इकट्ठा करेगा । और एप्रैम फिर डाह न करेगा और यहूदा के तंग करनेहारे काट डाले जाएंगे न तो एप्रैम यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा एप्रैम को तंग
- १४ करेगा । पर वे पच्छिम और पलिशियों के कंधे पर झण्डा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनो उन
- १५ के अधीन हो जाएंगे । और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचण्ड लूट से ऐसा सुखाएगा कि वह सात घार हो जाएगा और लोग जूती पहिने हुए भी पार
- १६ जाएंगे । सो उस की प्रजा के बच्चे हुआं के लिये अशशूर से एक ऐसा मार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल के लिये हुआ था ॥

१२. उस समय तू कहेगा कि हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि

- यद्यपि तू मुझ पर कोपित हुआ था पर अब तेरा कोप
- २ शान्त हुआ<sup>१</sup> और तू ने मुझे शान्ति दी है । ईश्वर मेरा उद्धार है सो मैं भरोसा रखूंगा और न थर-थराऊंगा क्योंकि याह यहोवा मेरा बल और भजन का
- ३ विषय है और वह मेरा उद्धार ठहर गया है । तुम उद्धार के सेतों से आनन्द के साथ जल भरोगे । और उस समय तुम कहेगे कि यहोवा का धन्यवाद करो उस से प्रार्थना करो सब जातियों में उस के बड़े कामों का प्रचार करो और इस की चचा करो कि उस का नाम महान्
- ५ है । यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उस ने प्रतापमय काम किये हैं यह सारी पृथिवी पर जाना जाए हे सिन्धुन की रहनेहारी जयजयकार कर और ऊंचे स्वर से गा क्योंकि इस्राएल का पवित्र तेरे बीच में महान् है ॥

१३. बाबेल के विषय का भारी वचन जिस

- को अमोस के पुत्र यशायाह
- २ ने दर्शन में पाया । मुंडे पहाड़ पर झंडा खड़ा करो

(१) मूल में फिर गया ।

- हाथ उठाकर उन को पुकारो कि वे रईसों के फाटकों में प्रवेश करें । मैं ने आप अपने पवित्र किये हुआं को
- ३ आज्ञा दी है मैं ने अपने कोप के कारण अपने बीरों को जो मेरे प्रताप के कारण हुलसते हैं बुलाया है ।
- ५ पहाड़ों पर बड़ी भीड़ का सा केलाहल हो रहा है राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हैरा मचा रही हैं सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिये अपनी सेना की गिनती ले रहा है । वे दूर देश से तो क्या पृथिवी<sup>२</sup> की
- ५ छोर से आये हैं यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिये आया है । हाथ हाथ करो क्योंकि यहोवा का दिन निकट है सर्वशक्तिमान् की ओर से माने सत्यानाश आता है । इस कारण सब के हाथ
- ७ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का कलेजा कांप जाएगा<sup>३</sup> । और वे घबरा जाएंगे उन को दुःख और पीड़ा
- ८ लगेगी उन को जननेहारी की सी पीड़े उठेंगी वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे उन के मुंह सूख जाएंगे<sup>४</sup> । देखो यहोवा का दिन राष और कांप और निर्दयता के
- ९ साथ आता है जिस से पृथिवी उजाड़ हो जाएगी और पापी उस में सं नाश किये जाएंगे । और आकाश के
- १० तारागण और बड़े नक्षत्र न झलकेंगे और सूर्य उदय होते ही छिप जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा । और मैं जगत के लोगों को उन की बुराई का
- ११ और दुष्टी को उन के अधर्म का दण्ड दूंगा और अभिमानियों के अभिमान को दूर करूंगा और उपद्रव करनेहारों के धमण्ड का ताड़ूंगा । मैं मनुष्य को कुन्दन से और
- १२ आदमी का ओपीर के सेने से अधिक महंगा करूंगा । और मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथिवी अपने स्थान
- १३ से टल जाएगी यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उस के भड़के हुए काप के दिन में होगा । और वे
- १४ खदेड़े हुए हरिण वा बिन चरवाहे की भेड़ों की नाईं अपन अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे । जो कोई मिले सो बेधा जाएगा और
- १५ जो कोई पकड़ा जाए सो तलवार से मार डाला जाएगा । और उन के बालक उन के साम्हने पटक दिये
- १६ जाएंगे और उन के घर लूटे जाएंगे और उन की स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी । देखो मैं उन के विरुद्ध मादी लोगों
- १७ को उभारूंगा जो नूतो चादी का कुछ विचार करेंगे और न सेने का लालच करेंगे । और वे तीरों से जवानों को
- १८ मारेंगे और न बच्चों पर कुछ दया करेंगे न लड़कों पर कुछ तरस लाएंगे । और बाबेल जो सब राज्यों का शिरोमणि
- १९

(२) मूल में आकाश । (३) मूल में मनुष्य का सारा हृदय गलेगा ।

(४) मूल में उन के लौबाले मुंह होंगे ।

और उस की शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं सो ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा परमेश्वर से उलट दिये जाने पर हो गये थे। वह फिर कभी न बसेगा और उस में युग युग कोई वास न करेगा और अरबी लोग भी उस में डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उस में अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जन्तु बैठेंगे और हुद्दानेहारे जन्तु उन के घरो में भरे रहेंगे और शुतुर्भुग वहां बसेंगे और बनैले बकरे वहां नाचेंगे और उस नगर के राजभवनों में हुंकार और उस के सुख विलास के मन्दिरों में गीदह बोला करेंगे उस के नाश होने का समय निकट आ गया और उस के दिन अब बहुत नहीं रहे। क्योंकि यहावा याकूब पर दया

१४. करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेशी उन से मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिलाएंगे<sup>१</sup>। और देश देश के लोग उन को उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इस्राएल का घराना यहावा की भूमि पर उन को दास दासियां करके उन के अधिकारी होगा और जो उन्हें बन्धुआई में ले गये थे उन्हें वे बन्धुए करेंगे और जो उन से परिश्रम कराते थे उन पर वे प्रभुता करेंगे ॥

जिस दिन यहावा तुम्हें तेरे सन्ताप और धराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुम्हें से लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बाबेल के राजा पर ताना मारकर कहगा कि परिश्रम करानेहारा कैसा नाश हो गया है सोनहले मन्दिरों से भरी नगरी<sup>२</sup> कैसी नाश हो गई है। यहावा ने दुष्टों के सोंटे को और प्रभुता करनेहारों के उस लठ को तोड़ दिया है, जिस से वे मनुष्यों को रोष से लगातार मारते जाते और जाति जाति पर कोप से प्रभुता करते और लगातार उन के पीछे पड़े रहते थे। सारी पृथिवी को विश्राम मिला है वह चैन से है लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। सनावर और लबालोन के देवदार भी तुम्हें पर आनन्द करते हैं कि जय से तू पड़ा हुआ है तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। नीचे से अधोलोक में तुम्हें से मिलने का हलचल हो रही है वे मरे हुए जो पृथिवी पर प्रधान थे सो तेरे कारण जाग उठे हैं और जाति जाति के सब राजा अपने अपने सिंहासन पर से उठे हैं। ये सब तुम्हें से कहते हैं क्या तू भी हमारी नाईं निर्बल हो गया है क्या तू हमारे समान ही बन गया। तेरा विभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है कीड़े तेरा बिलौना

(१) मूल में यह कहावत उठाएगी कि। (२) मूल में सोन का डेर।

और केजुए तेरा ओढ़ना है। हे मोर के खमकनेहारे तारे<sup>३</sup> तू आकाश से कैसा गिर पड़ा है तू जो जाति जाति को हरा देता था सो अब कैसे भाटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजंगा। मैं मघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा मैं परमप्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। पर तू अधोलोक में बरन उस गड़ह की छोर लों उतारा जाएगा। जो तुम्हें देखते सो तुम्हें का ध्यान से ताकते और तेरे विषय सोच सोचकर कहत हैं कि जो पृथिवी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में धराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उस के नगरों को ढा देता था और अपने बन्धुओं को घर जाने न देता था क्या यह वही पुरुष है। जाति जाति के राजा सब के सब अपने अपने घर पर महिमा के साथ पड़े हैं। पर तू निकम्मी शिखा की नाईं अपनी कबर में से फेंका गया तू उन मारे हुआ की लोथों से बिरा है<sup>४</sup> जा तलवार से पिधकर गड़ह में पत्थरों के बीच पड़े है और तू लताड़ी हुई लाथ के समान है। उन के साथ तुम्हें मिट्टी न मिली क्योंकि तू ने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है कुकर्मियों के वश का नाम भी न रहेगा<sup>५</sup>। उन के पितरों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो ऐसा न हो कि वे फिर पृथिवी के अधिकारी हो जाए और जगत में बहुत से नगर बसाएं। और सेनाओं के यहावा की यह वाणी है कि मैं उन के विरुद्ध उठूंगा और बाबेल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटे पोते को काट डालूंगा यहावा की यह वाणी है। मैं उस को साही की मान्द और जल की भीलें कर दूंगा और मैं उसे सत्यानाश के झाड़ू से काट डालूंगा सेनाओं के यहावा की यह भी वाणी है ॥

सेनाओं के यहावा ने यह किरिया खाई है कि निःसन्देह जैसा मैं ने ठाना वैसा ही होगा और जैसी मैं ने युक्ति की है वैसी ही ठहरी रहेगी, कि मैं अशशूर को अपने देश में ताड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा तब उस का जूआ उन की गर्दनों पर से और उस का बोझ उन के कंधों पर से उतर जाएगा। यह वही युक्ति है जो सारी पृथिवी के लिये की गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा हुआ

(३) मूल में बेटे। (४) मूल में लोथें पत्थरों हैं।

(५) मूल में नाम कभी लिया न जाएगा।

(६) मूल में बाबेल का नाम और बन्ती और बेटे पोते को काट डालूंगा।

- २७ है । क्योंकि सेनाओं के योद्धा ने युक्ति की है कौन उस की टाल सकता है और उस का हाथ बढ़ा हुआ है उसे कौन फेर सकता है ॥
- २८ जिस वरस में आहाज राजा मर गया उसी में यह भारी वचन पहुँचा ॥
- २९ हे सारे पालिशत वृ इसलिये आनन्द न कर कि तेरे मारनेहारे की लाठी टूट गई है क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और इस से एक उड़नेहारा
- ३० और तेज विषवाला सर्प उत्पन्न होगा । और कंगाल से कंगाल खाने और दरिद्र लोग निडर बैठने तो पापों पर मैं तेरे वंश को भूल से मार डालूँगा और तेरे बच्चे हुए
- ३१ लोग घात किये जाएंगे । हे फाटक हाथ हाथ कर हे नगर चिन्ता हे पालिशत वृ सब का सब पिघल गया है क्योंकि उत्तर से धूआँ आता है और कोई अपनी पति
- ३२ से बिकुर नहीं जाता । तब अन्यजातियों के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा यह कि योद्धा ने सिन्धोन की नेब डाली है और उस की प्रजा में के दीन लोग उस में शरण लिये हैं ॥

## १५. मोआब के विषय भारी वचन ।

- निश्चय मोआब का और नगर एक ही रात में उजड़ और नाश हो गया है निश्चय मोआब का कीर नगर एक ही रात में उजड़
- २ और नाश हो गया है । बैत और दीबोन ऊँचे स्थानों पर राने के लिए चढ़ गये हैं नबो और मंदबा के ऊपर मोआब हाथ हाथ करता है उन सभी के सिर मुड़े हुए
- ३ और सभी की डाढ़ियाँ मुड़ी हुई हैं । सड़कों में लोग टाट पहिने हैं छतों पर और चौकों में सब कोई आँसू
- ४ बहाते हुए हाथ हाथ करते हैं । और देशबोन और एलाले चिन्ता रहे हैं उन का शब्द यहल लौ सुन पड़ता है इस कारण मोआब के हथियारबन्द लोग चिन्ता रहे
- ५ हैं उस का जी अति उदास है । मेरा मन मोआब के कारण दुःखित है क्योंकि उन के रईस सोअर और एललशलीशिय्या लो भागे जाते हैं देखो लूहीत की चढ़ाई में वे रोते हुए चढ़ रहे हैं सुने। हेरोनैम के मार्ग
- ६ में वे नाश की चिन्ताहट उठाते हैं । और निमीम का जल सूख गया और घास मुर्झा गई कामल घास सूख गई हरियाली कुछ नहीं रही । इसलिये जो धन उन्होंने कबा रक्खा और जो कुछ उन्होंने जमा किया उस सब को वे उस नाले के पार लिये जा रहे हैं जिस में
- ७ मजनुबूच है । इस कारण मोआब के चारों ओर के सिवाने में चिन्ताहट हो रही है उस में का हाहाकार

एगलैम और बेरेलीम में भी सुन पड़ता है । क्योंकि दीमोन का सेता लोहू से मरा हुआ है मैं तो दीमोन पर और भी दुःख डालूँगा मैं बच्चे हुए मोआबियों और उन के देश से भागे हुएों के बिबद सिंह मेजुँगा ॥

## १६. देश के हाकिम के लिये मेजों के

बच्चों को जंगल की ओर के सेला नगर से सिन्धोन<sup>१</sup> के पर्वत पर मेजो । और जैसे उजाड़े हुए घोंसले से वैसे ही मोआब की बेटियाँ अर्नोन के घाट पर होगी । संमति करो न्याय चुकाओ दोगहर ही अपनी छाया को रात के समान करो घर से निकाले हुएों को छिग रक्खो जो मारे मारे फिरते हैं उन को मत पकड़ाओ । मेरे लोग जो निकाले हुए हैं सो तेरे बीच रहने पाएँ नाश करनेहारे से मोआब को बचाओ क्योंकि पीसनेहारा नहीं रहा लूट पाट फिर न होगी देश में से अन्धेर करनेहारे नाश हो गये हैं । और दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सबाई के साथ एक विराजमान होगा जो सौच विचार कर न्याय करेगा<sup>२</sup> और धर्म के काम कुर्तों से पूरा करेगा ॥

हम ने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यन्त गर्वी है उस के अभिमान और गर्व और रोष तो है पर उस का बड़ा बोल व्यर्थ ठहरेगा । क्योंकि मोआब मोआब के लिये हाथ हाथ करेगा सब के सब हाहाकार करेंगे कीर्तिसैत की दाख की टिकियों के लिये वे अति निराश होकर लम्बी लम्बी सांस लिया करेंगे । क्योंकि देशबोन के खेत और सिबमा की दाखलताएं मुर्झा जाती हैं अन्यजातियों के अधिकारियों ने उन की उत्तम उत्तम लताओं को काट काटकर गिरा दिया है वे याजेर लो पहुँचीं वे जंगल में भी फैलती थीं और बढ़ते बढ़ते ताल के पार भी बढ़ गई थीं । सो मैं याजेर के साथ सिबमा की दाखलताओं के लिये रोऊँगा हे देशबोन और एलाले मैं तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूँगा क्योंकि तुम्हारे वृषकाल के फलों के और अनाज की कटनी के समय ललकार सुनाई पड़ी है । और फलदाई बारियों में से आनन्द और मगनता जाती रही और दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा न हर्ष का शब्द सुनाई देगा दाखरस के कुएडों में कोई दाख न रहेगा क्योंकि मैं उन के हर्ष के शब्द को बन्द करूँगा । इसलिये मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय कीर्तिसैत के कारण

(१) मूल में सिन्धोन की बंदी ।

(२) मूल में जो न्याय करेगा और न्याय पूरेगा ।

- १२ वीणा का सा शब्द देता है । और जब मोआव उंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए तब उस से कुछ न बन पड़ेगा ॥
- ३ यही तो वह बात है जो यहोवा ने इस से पहिले मोआव के विषय कही थी । पर अब यहोवा ने यों कहा है कि मजूर के बरसों के समान तीन बरस के भीतर मोआव का विभव और उस की भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी और जो बच्चे सो थोड़े ही होंगे और कुछ लेखे में न रहेंगे ॥

### १७. दमिश्क के विषय भारी वचन ।

- सुनो दमिश्क तो नगर न रहा वह खण्डहर ही खण्डहर हो जाएगा । अरोपर के नगर निर्जन हो जाएंगे वे पशुओं के भुण्डों के स्थान बनेंगे पशु उन में बैठेंगे और उन का कोई भगानेहारा न होगा । एप्रैम के गढ़वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों आगे के न रहेंगे वे इस्राएलियों के विभव के समान होंगे सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ॥
- ४ और उस समय याकूब का विभव क्षीण हो जाएगा ५ और उस की मोटी देह दुबली होगी । और ऐसा होगा जैसा लवनेहारा अनाज काट कर बालों को अपनी अंकवार में समेट लाया हो वा रपाईम नाम तराई में कोई सिला बिनता हो । तौमी जैसा जलपाई वृक्ष के भाड़ते समय कुछ कुछ फल रह जाते हैं अर्थात् फुनगी पर दो तीन फल और फलवन्त डालियों में कहीं चार कहीं पांच फल रह जाते हैं वैसा ही उन में सिला बिनाई होगी । इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ।
- ७ उस समय मनुष्य अपने कर्त्ता की ओर दृष्टि करेगा और उस की आंख इस्राएल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी । ८ और वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई अशेरा नाम मूर्तों वा ९ सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा । उस समय उन के गढ़वाले नगर घने वन के और पहाड़ों की चोटियों के उन निर्जन स्थानों के समान होंगे जो इस्राएलियों के डर के मारे छोड़ दिये गये थे और १० वे उजाड़ पड़े रहेंगे । क्योंकि तू अपने उदारकर्त्ता परमेश्वर को भूल गई और अपनी हठ चटान का स्मरण नहीं रखता इस कारण तू मनभावने पीषे लगाती ११ और विदेशी कलमें रोप देती है । रोपने के दिन तू उन के चारों ओर बाड़ा बांधती है और विहान के

फूल खिलने लगते हैं पर सन्ताप और असाध्य दुःख के दिन उस का फल नाश हो जाता है ॥

अहो देश देश के बहुत से लोगों की कैसी १२ गरजना हो रही है जो समुद्र की नाई मारते हैं और राज्य राज्य के लोगों का कैसा नाद हो रहा है जो प्रचण्ड धारा के समान नाद करते हैं । राज्य राज्य के १३ लोग बहुत से जल की नाई नाद करते तो हैं पर वह उन को धुंकेगा तब वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाये जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूलि बवण्डर से मारकर उड़ाई जाती है । सांझ को तो देखो चबरा- १४ हट और भोर से पहिले वे जाते रहे । हमारे घन के छीननेहारे का यही भाग और हमारे लूटनेहारे का यही हाल होगा ॥

### १८. अहो पंखों की संसनाहट से भरे हुए

देश तू जो कूश की नदियों के परे है, और समुद्र पर दूतों के नरकट की नावों में २ बैठा कर जल के मार्ग से यह कहके भेजता है कि हे कुर्तिले दूतों उस जाति के पास जाओ जिस के लोग लम्बे और चिकने हैं और वे आदि ही से डरावने होते आये हैं वे मापने और रौंदनेहारे भी हैं और उन का देश नदियों से विभाग किया हुआ है । हे जगत के सब ३ रहनेहारे और पृथिवी के सब निवासियों जब भंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए तब उसे देखो और जब नरसिगा फंका जाए तब सुनो । क्योंकि यहोवा ने मुझ ४ से यों कहा है कि धूप की तेज गर्मी वा कटनी के समय के ओसवाले बादल की नाई मैं शान्त होकर निहा- ५ रंगा । पर दाख तोड़ने के समय से पहिले जब फूल फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगें तब वह टह- ६ नियो को हंजुओं से काट डालेगा और सूतों को तोड़ तोड़कर अलग फेंक देगा । वे पहाड़ों के मांसाहारी ६ पक्षियों और बनेले पशुओं के लिये इकट्ठे पड़े रहेंगे और मांसाहारी पक्षी तो उन को नोचते नोचते धूपकाल बिता- ७ एंगे और सब भान्ति के बनेले पशु उन को खाते खाते जाड़ा काटेंगे ॥

उस समय जिस जाति के लोग लम्बे और चिकने हैं और वे आदि ही से डरावने होते आये हैं और वे मापने और रौंदनेहारे हैं और उन का देश नदियों से विभाग किया हुआ है उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी ॥

(१) मूल में उन पर । (२) मूल में और भूमि के सब ।

१६. मिस्र के विषय भारी बचन । देखो यहोवा शीघ्र उड़नेहारे बादल पर चढ़ा हुआ मिस्र में आ रहा है और मिस्र की मूर्तों उस के आने से थरथरा उठगी और मिस्रियों का कलेजा कांप जाएगा । और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभाऊंगा सो वे आपस में लड़ेंगे भाई से भाई पड़ेसी से पड़ेसी नगर से नगर राज्य से राज्य लड़ेंगे । और मिस्रियों की बुद्धि मारी पड़ेगी? और मैं उन की युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा और वे अपनी मूर्तों के पास और ओम्फों और फुसफुसानेहारे टोनहों के पास जा जाकर उन से पूछेंगे । और मैं मिस्रियों को कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा और क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है । और समुद्र का जल घट जाएगा और महानद सूखते सूखते सूख जाएगा । और उस की शाखाएं बसाने लगेंगी और मिस्र की नहरें भी घटते घटते सूख जाएगी और नरकट और हुगले कुम्हलाएंगे । नील नदी के तीर पर के कछार की घास और नील नदी के पास जो कुछ बोया जाएगा सो सूखकर नाश होगा और उस का पता तक न रहेगा । तब मछुवे विलाप करेंगे और जितने नील नदी में बंसी डालते सो लम्बी लम्बी सांस लेंगे और जो जल के ऊपर जाल फँकते हैं सो निर्बल हो जाएंगे । फिर जो लोग धुने हुए सन से काम करते हैं और जो सूत से बुनते हैं उन की आशा टूटेगी । और मिस्र के रईस तो निराश और उस में के सब मजूर उदास हो जाएंगे । निश्चय सोअन के सब हाकिम मूर्ख हैं और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी हुई है फिरौन से तुम कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं का पुत्र हूँ । तेरे बुद्धिमान तो कहाँ रहे सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विरुद्ध जो युक्ति की है उस को वे तुम्हें बताएँ बरन आप उस को जान लें । सोअन के हाकिम मूढ़ बने हैं नेप के हाकिमों ने घोखा खाया है और मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों ने मिस्र को भरमा दिया है । यहोवा ने उस के बीच भ्रमता उत्पन्न की है उन्होंने ने मिस्र को उस के सारे कामों में धमन करते हुए मतवाले की नाई डगमगा दिया है । और मिस्र के लिये कोई ऐसा काम

- (१) मूल में मिस्र का आत्मा उस के भीतर छुड़ा होगा ।  
 (२) मूल में और फुसफुसानेहारों और ओम्फों और टोनहों ।  
 (३) मूल में मासोर ।  
 (४) मूल में सूखकर भगाया जाएगा । (५) मूल में सो कुम्हलाएंगे ।  
 (६) मूल में उस के खम्भे तो टूट पड़ेंगे ।  
 (७) मूल में गोत्रों के कोने ।

न रहेगा जो सिर वा पूंछ से खर की डाही वा सरफंडे से हो सके ॥

उस समय मिस्रि लोग कियों के समान हो जाएंगे १९ और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढाएगा उस के डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे । और यहूदा का देश मिस्र के लिये यहाँ लौंभ का कारण होगा कि जिस के सुनने में उस की चर्चा की जाए सो थरथरा उठेगा सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है ॥

उस समय मिस्र देश के पांच नगर होंगे जिन के लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की किरिया खाएंगे उन में से एक का नाम हेरेस नगर रक्खा जाएगा ॥

उस समय मिस्र देश के मध्य में यहोवा के लिये एक वेदी होगी और उस के सिवाने के पास यहोवा के लिये एक खंभा खड़ा होगा । और यह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा का चिन्ह और साक्षी ठहरेगा और जब वे अंचेर करनेहारों के कारण यहोवा की दोहाई देंगे तब वह उन के पास एक उद्धारकर्त्ता और वीर भेजेगा और वह उन्हें छुड़ाएगा । तब यहोवा अपने को मिस्रियों पर प्रगट करेगा और मिस्रि लोग उस समय यहोवा का ज्ञान पाकर मेलबलि और अन्नबलि चढ़ा कर उस की उपासना करेंगे और यहोवा का मन्त्र मानकर पूरी करेंगे । और यहोवा मिस्र का कूटेगा वह कूटेगा और चंगा भी करेगा और वे यहोवा की ओर फिरंग और वह उन की बिनती सुन कर उन को चंगा करेगा ॥

उस समय मिस्र से अशशूर जाने का एक राजमार्ग होगा सो अशशूरी लोग मिस्र में और मिस्रि लोग अशशूर में जाएंग और अशशूरियों के संग मिस्रि उपासना करेंगे ॥

उस समय इस्राएल मिस्र और अशशूर तीनों मिलकर पृथिवी के मध्य में आशिष का कारण हों । क्योंकि सेनाओं का यहोवा कह कह कर उन तीनों को आशिष देगा कि धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अशशूर और मेरा निज भाग इस्राएल ॥

२०. जिस बरस में अशशूर के राजा सगौन की आज्ञा से तर्तान ने अशशूर के पास आकर उस से युद्ध किया और उस को ले भी लिया, उसी बरस में यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी अतियाँ उतार सो उस ने बैसा किया और उषाड़ा और

(८) अर्थात् वह जानेवाला नगर ।

३ नंगे पांव चलने लगा । और यहोवा ने कहा कि जिस प्रकार मेरा दास यशायाह तीन बरस से उधाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिये चिन्ह और चमत्कार हो, उसी प्रकार अशूर का राजा मिस्र और कूश के क्या लड़के क्या बूढ़े सभी के बंधुए करके उधाड़े और नंग पांव और नितम्ब खुले ले जाएगा ५ जिस से मिस्र को लाज हो । और वे कूश के कारण जिस पर वे आशा रखते हैं और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते हैं व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे । और मसुद्र के इस किनारे के रहनेवाले उस समय कहें ॥ देखां जिन पर हम आशा रखने थे और जिन के पास हम अशूर का राजा से बचने के लिये भागने को थे उन की तो ऐसी दशा हो गई है फिर हम लोग कैसे बचेंगे ॥

**२१. मसुद्र** के पास के जंगल के विषय भारी वचन । जैसे दम्बिन देश में बवयडर जोर से चलते हैं वैन ही वह जङ्गल से अर्थात् २ डरावने देश से आता है । कष्ट की बातों का दर्शन दिखाया गया है कि विश्वासघाती विश्वासघात करता और नाश करनेवाला नाश करता है हे एलाम चढ़ाई कर हे मादै घेर ले उस का सारा कराहना मैं ने ३ बन्द किया है । इस कारण मेरी कटि में कठिन पीड़ा उपजी जननेहारी की सी पीड़ें मुझे उठी हैं मैं ऐसे संकट में हूँ कि कुछ सुन नहीं पड़ता मैं ऐसा खरा गया कि ४ कुछ देख नहीं पड़ता । मेरा हृदय धड़क उठा मैं अत्यन्त भयभीत हूँ जिस सांभ के मैं चाहता था उसे उस ने ५ मेरी धरधराहट का कारण कर दिया है । भोजन की तैयारी हो रही है पहरेदार बैठाये जा रहे हैं खाना पीना हो रहा है हे हाकिमो उठो ढाल में तेल लगाओ । प्रभु ने मुझ से या कहा है कि जाकर एक पहरेदार खड़ा कर ७ दे और वह जो कुछ देखे सो बताए । और जब वह दो दो करके चलते हुए सवारों का दल और गदहों का दल और ऊंटों का दल देखे तब बहुत ही ध्यान देकर कान ८ लगाए । और उस ने सिंह के से शब्द से पुकारा हे प्रभु मैं तो दिन भर लगातार खड़ा पहरा देना हूँ और ९ रात भर भी अपनी चौकी पर ठहरा रहता हूँ । और क्या देखता हूँ कि मनुष्यों का दल और दो दो करके चलते हुए सवार आ रहे हैं और वह बाल उठा बाबेल गिर गया गिर गया और उस के देवताओं की सब खुदी १० हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं । हे मेरे दाएँ हुए लोगो हे मेरे खलिथान के अन्न जो बातें मैं ने

इसाएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी हैं उन को मैं ने तुम्हें जता दिया है ॥

दूमा के विषय भारी वचन । सईर में से कोई मुझे ११ पुकार रहा है कि हे पहरेदार रात कितनी रही है हे पहरेदार रात कितनी रही है । पहरेदार कहता है कि भोर १२ तो होने पर है और रात भी यदि पूछो तो पूछो फिर आओ ॥

अरब के विरुद्ध भारी वचन । हे ददानी बटोहियो १३ के दलो तुम का अरब के जङ्गल में रात बितानी पड़ेगी । क्यासे के पास वे जल लाये तमा देग के रहनेवाले भागते १४ हुए से मिलने को रोटी लिये हुए आ रहे हैं । वे तो १५ तलवार से खन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष में और धार मुठ से भागे हैं । क्योंकि प्रभु ने मुझ से १६ यों कहा है कि मजूर के बरसों के अनुसार एक बरस में केदार का सारा विभव विलाय जाएगा । और १७ केदार के धनुर्धारी शूरीरों में से थोड़े ही रह जाएंगे क्योंकि इसाएल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है ॥

**२२. दर्शन** की तराई के विषय भारी वचन । तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब छतों पर चढ़ गये हो । हे कोलाहल और २ हीरे से भरी नगरी हे हुलसनेवाले नगर तुम में जो मारे हुए हैं सो न तो तलवार के मारे और न लड़ाई में मर गये हैं । तरे सब न्यायी एक संग भागे और धनुर्धारियों ३ से बान्धे गये हैं और तेरे जितने पाये गये सो एक संग बान्धे गये वे दूर से भागे थे । इस कारण मैं ने कहा ४ मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलक बिलक रोऊँ मेरे नगर के सत्यानाश होने के शोक में मुझे शान्ति देने का यत्न मत करो । वह तो सेनाओं के यहोवा प्रभु का ठहराया हुआ दिन होगा जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौंदा जाना आर चौधियाना होगा और शहरपनाह में सुरंग लगाई जाएगी और देहाई का शब्द पहाड़ों लों पहुंचेगा । और एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत ५ तर्कश बाधे हुए हैं और कीर ढाल खोले हुए हैं । और ७ नेरी उत्तम उत्तम तराइयां रयां से भरी हुई होंगी और मत्रार फाटक के साम्हने पांति बाधेंगे ॥

और उस ने यहूदा की आड़ खोल दी और उस ८ समय तु ने वन नाम भवन में के अन्न शन्न की सुधि ली । और तुम ने दाऊदपुर की शहरपनाह के दरारों को ९ देखा कि बहुत से हैं और निचले पाखरों के जल को इकट्ठा किया, और यरूशलेम के चरों को गिन कर शहर- १०

- ११ पनाह के हट करने के लिये शरीरों को ढा दिया, और दोनों मीलों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिये एक कुंड खोदा तुम ने उस के कत्तों की सुधि नहीं ली और जिस ने प्राचीनकाल से उस को ठहरा रक्खा<sup>१</sup> है उस की
- १२ ओर तुम ने दृष्टि नहीं की । और प्रभु सेनाओं के यहोवा ने उस समय रोने पीटने तिर मुड़ाने और टाट
- १३ रहने के लिये कहा था । पर म्या देखा कि हर्ष और आनन्द गाय बैल का घात और मेड़ बकरी का बध मास खाना और दाखमधु पीना और यह कहना कि खा पी
- १४ ले कल तो मरना है । सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में अपने मन की बात प्रगट की कि निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ प्रायश्चित्त तुम्हारे मरने लों न हो सकेगा प्रभु सेनाओं का यहोवा यही कहता है ॥
- १५ प्रभु सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि शेबना नाम उस भण्डारी के पास जो राजघराने के काम पर है
- १६ जाकर कह कि, यहाँ तू म्या करता है और यहाँ तेरा हीन है कि तू ने यहाँ अपनी कबर खुदवाई है तू तो अपनी कबर ऊँचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का
- १७ स्थान ढांग में खुदवा लेता है । सुन यहोवा तुम्हें को पहलवान की नाई बल से पकड़कर बड़ी दूर फेंक
- १८ देगा । वह तुम्हें मरोड़कर गेन्द की नाई लम्बे चौड़े देश में फेंक देगा हे अपने स्वामी के घराने के लज-वानेहारे वहाँ तू मरेगा और तेरे विभव के रथ वहीं रह
- १९ जायेंगे । मैं तुम्हें को तेरे स्थान पर से टकेल दूंगा और
- २० वह तेरे पद से तुम्हें उतार देगा । और उस समय मैं हिल्कियाह के पुत्र अपने दास एल्याकीम को बुलाकर,
- २१ तेरा ही घागरखा पहनाऊंगा और उस की कमर में तेरी ही पेट्टी कसकर बान्धूंगा और तेरी प्रभुता उस के हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहनेहारों और
- २२ यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा । और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उस के कंधे पर रक्खूंगा और वह खोलेंगा और कोई बन्द न कर सकेगा वह बन्द करेगा
- २३ और कोई खोल न सकेगा । और मैं उस को हट स्थान में खूंटो की नाई गाड़ूंगा और वह अपने पिता के
- २४ घराने के लिये विभव का कारख<sup>२</sup> होगा । और उस के पिता के घराने का सारा विभव वंश और संतान सब छोटे छोटे पात्र म्या कटोरे म्या सुराहियाँ सो सब उस
- २५ पर टांगी जाएंगी । सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वह खूंटो जो हट स्थान में गड़ेगी सो ढीली हो जाएगी और काटकर गिराई जाएगी और

उस पर का बोझ कट जाएगा क्योंकि यहोवा ने यह कहा है ॥

## २३. सेर के विषय भारी वचन । हे

तर्शाश के जहाजो हाय हाय करो क्योंकि वह ऐसा सत्यानाश हुआ कि उस में न तो घर न प्रवेश रहा यह बात तुम को कित्तियों के देश में मे प्रगट की गई है । हे समुद्र के तीर के रहनेहारो चुपकर रहे तू जिस को समुद्र के पार जानेहारे सीदानी ब्योपारियों ने धन से भर दिया है, और शीहार<sup>३</sup> का अन्न और नील नदी के पास की उपज महा-भार के मार्ग से उस को मिलती थी सो वह और और गतियों के लिये व्यापार का स्थान हुआ । हे सीदोन लाज्जित हो क्योंकि समुद्र ने अर्थात् समुद्र के हट स्थान ने यह कहा है कि मैं ने न तो कभी जनने की पीड़ा जानी न बालक जनी और न बेटों को पाला न बेटियों को पोसा है । जब सेर का समाचार मिस्र में पहुँचे तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे । हे समुद्र के तीर के रहनेहारो हाय हाय करो पार होकर तर्शाश को जाओ । क्या यह तुम्हारी हुलस से भरी हुई नगरी है जो प्राचीनकाल से बसी थी जिस के पाँव उसे बसने को दूर ले जाते थे । सेर जो राजाओं के गद्दी पर बैठाती थी<sup>४</sup> जिस के ब्योगरी हाकिम हुए थे और जिस के महाजन पृथिवी भर में प्रतिष्ठित थे उस के बिरुद्ध किस ने ऐसी युक्ति की है । सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि सारी लड़ाव के घमण्ड को तुच्छ करा दे और पृथिवी के प्रसङ्गिता का अपमान कराए । हे तर्शाश के निगासयों<sup>५</sup> नील नदी की नाह अपने देश में फैल जाओ क्योंकि अब कुछ बंधन<sup>६</sup> नहीं रहा । उस ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्य राज्य को हिला दिया है यहोवा ने कनान के हट स्थानों के नाश करने की हुई आशा दी है । और उस ने कहा है हे सीदोन हे भ्रष्ट की हुई कुमारी तू फिर हुलसने की नहीं उठ पार होकर कित्तियों के पास जा तो जा पर वहाँ भी तुम्हें चैन न मिलेगा । कसदियों के देश को देखो यह जाति अब न रही अश्शर ने उस देश को जंगली जन्तुओं का स्थान ठहराया उन्होंने ने गुम्मत उठाए और राजभवनों को ढा दिया और उस को खण्डहर कर दिया । हे तर्शाश के जहाजो हाय हाय करो क्योंकि तुम्हारे हटस्थान उजड़ गया है ।

(१) मूल में हले रखा ।

(२) मूल में महिमायुक्त सिंहासन ।

(३) अर्थात् मिस्र का उत्तरवाला भाग ।

(४) मूल में सुकुट

रखनेहारो सेर ।

(५) मूल में तर्शाश की बेटी ।

(६) मूल में फेंटा ।

१५ उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार सत्तर बरस लों  
 सौर विश्वा हुआ रहेगा और सत्तर के बीते पर सौर वेश्या  
 १६ की नाई गीत गाने लगेगी । हे बिसरी हुई वेश्या वीणा  
 लेकर नगर में घूम भली माति बजा बहुत गीत गा  
 १७ जिस से तू फिर स्मरण में आए । और सत्तर बरस के बीते  
 पर यहोवा सौर की सुधि लेगा और वह फिर छिनाले  
 की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों  
 ८ के संग छिनाला करेगी । और उस के ब्योपार की प्राप्ति  
 और उस के छिनाले की कमाई यहोवा के लिये पवित्र  
 ठहरेगी वह न भयङ्कर में रक्खी जाएगी न संवय का  
 जाएगी क्योंकि उस के ब्योपार की प्राप्ति उन्हीं के काम  
 में आएगी जो यहोवा के साम्हने रहा करेंगे कि उन का  
 पूरा भोजन और चमकीला बन्न मिले ॥

## २४. सुनो यहोवा पृथिवी को निर्जन और सुनसान करने पर है वह उस

को उलटकर उस के रहनेहारों को तित्तर बित्तर करेगा ।  
 २ और जैसा यजमान वैसा याजक जैसा दास वैसा  
 स्वामी जैसी दासी वैसी भवामिनी जैसा लेनेहारा वैसा  
 बेचनेहारा जैसा उधार देनेहारा वैसा उधार लेनेहारा  
 जैसा व्याज लेनेहारा वैसा व्याज देनेहारा सभा की एक ही  
 ३ दशा होगी । पृथिवी सुन ही सुन और नाश ही नाश  
 ४ हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है । पृथिवी  
 विलाप करेगी और मुर्झाएगी जगत कुम्हलाएगा और  
 मुर्झा जाएगा पृथिवी के महान् लोग कुम्हला जाएंगे ।  
 ५ क्योंकि पृथिवी अपने रहनेहारों के कारण<sup>१</sup> अग्रदुःख हो  
 गई है क्योंकि उन्हां ने व्यवस्था का उल्लंघन किया और  
 विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़  
 ६ दिया है । इस कारण स्राप पृथिवी को प्रसेगा और  
 उस के रहनेहारे दोषी ठहरगे और इसी कारण पृथिवी  
 के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएगे ।  
 ७ नया दाखमधु जाता रहेगा<sup>२</sup> दाखलता मुर्झा जाएगी  
 और जितने मन में आनन्द करते हैं सब लम्बी लम्बी  
 ८ सांस लेंगे । डफ का सुखदाई शब्द बन्द हो जाएगा  
 हुलसनेहारों का कोलाहल जाता रहेगा वीणा का सुख-  
 ९ दाई शब्द बन्द हो जाएगा । वे गाकर दाखमधु न  
 १० पीएंगे पीनेहारों को मदिरा कड़ुई लगेगी । सुनसान  
 होनेहारी नगरी नाश होगी उस का हर एक घर ऐसा  
 ११ बंद किया जाएगा कि कोई पैठ न सकेगा । सड़का में  
 लोग दाखमधु के लिये चिन्ताएंगे आनन्द मिट जाएगा<sup>३</sup>

देश का सारा हर्ष जाता रहेगा । नगर में उजाड़ ही १२  
 रह जाएगा और उस के फाटक तोड़कर नाश किये  
 जाएंगे । और पृथिवी के बीच देश देश के मध्य वह १३  
 ऐसा होगा जैसा कि जलपाइयों के भाड़ने के समय  
 वा दाख तोड़ने के समय के अन्त में कोई कोई फल रह  
 जाते हैं । वे लोग गला खालकर जयजयकार करेंगे १४  
 और यहोवा के माहात्म्य को देखकर समुद्र से पुकारेंगे  
 इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र १५  
 के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का  
 गुणानुवाद करो ॥

पृथिवी की छोर से हम को ऐसे गीत सुन पड़ते १६  
 हैं कि धर्मी के लिये शोभा है । पर मैं ने कहा हाय हाय  
 मैं नाश हो गया नाश<sup>४</sup> विश्वासघाती विश्वासघात  
 करते वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं । हे पृथिवी १७  
 के रहनेहारे तुम्हारे लिये भय और गड़हा और फन्दा  
 हैं । और जो कोई भय के शब्द से भागे सो गड़हे १८  
 में गरेगा और जो कोई गड़हे में से निकले सो फंदे में  
 फंसेगा क्योंकि आकाश के भंगखे खुल जाएंगे और  
 पृथिवी की नेब डोल उठेगी । पृथ्वी फट फटकर १९  
 टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पृथिवी अन्त काप उठेगी ।  
 पृथिवी मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और २०  
 मचान की नाई डालेगी वह अपने पाप के बाभ से  
 दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी, उस समय यहोवा २१  
 आकाश की सेना को आकाश में और पृथिवी के राजाओं  
 को पृथिवी ही पर दण्ड देगा । और वे बंधुओं की २२  
 नाई गड़हे में इकट्ठे किये जाएंगे और बन्दीगृह में बंद  
 किये जाएंगे और बहुत दिन के पीछे उन की सुधि ली  
 जाएगी । तब चन्द्रमा संकुचत<sup>५</sup> हो जाएगा और सूर्य २३  
 लजाएगा क्योंकि सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत  
 पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के  
 साम्हने प्रताप के साथ राज्य करेगा ॥

## २५. हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है मैं तुझे सराहूंगा मैं तेरे नाम का

धन्यवाद करूंगा क्योंकि तू ने आश्चर्य कर्म किये हैं तू  
 ने प्राचीनकाल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं ।  
 तू ने तो नगर को डीह और उस गढ़वाले नगर को २  
 खण्डहर कर डाला है तू ने परदेशियों की राजपुरी को  
 ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा वह फिर कभी  
 बसाई न जाएगी । इस कारण बलवत्त राज्य के लोग ३  
 तेरी महिमा करगे भयानक अन्यायियों के नगर में तेरा

(१) मूल में नीचे ।

(२) मूल में विलाप करेगा । (३) मूल में अन्धेरा होगा ।

(४) मूल में क्षीण हो गया क्षीण । (५) मूल में चन्द्रमा का मुंह काला ।



४ भय माना जाएगा । क्योंकि तू दीन और दरिद्र के संकट में उन का हृदयस्थान हुआ जब भयानक लोगों का भोका भात पर के बाँछार के समान होता था तब तू उस बाँछार से बचने के लिये शरणस्थान और तपन में

५ छाया का ठौर हुआ । जैसा निर्जल देश में तपन बादल की छाया से ठण्डा होता है वैसा ही तू परदेशियों का हैरा और भयानकों का जयजयकार बन्द करता है ॥

६ और सेनाओं का यहोवा इस पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिये ऐसा जेवनार करेगा जिस में भाँति भाँति का चिकना भोजन और थिराया हुआ दाखमधु होगा चिकना भोजन तो उत्तम से उत्तम और थिराया हुआ दाखमधु

७ खूब थिराया हुआ होगा । और जो पर्वत सब देशों के लोगों पर पड़ा है और जो ओहदार सब अन्यजातियों पर पड़ा हुआ है उन दोनों का वह इसी पर्वत पर नाश

८ करेगा । वह मृत्यु को सदा के लिये नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभों के मुख पर से आंस पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथिवी पर से दूर करेगा क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है ॥

९ और उस समय यह कहा जाएगा कि देखो हमारा परमेश्वर यही है हम इस की बाट जोहते आये हैं यह हमारा उद्धार करेगा यहेवा यही है हम इस की बाट जोहते आये हैं हम इस से उद्धार पाकर मगत और

१० आनन्दित होंगे । क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ उठरेगा और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा पुआल घूर के जल में लताड़ा जाता है ।

११ और वह उस में अपने हाथ पैरने के समय की नाई फैलाएगा पर वह उस के गर्व को तोड़ेगा और उस की चतुराई की युक्तियों को निष्फल कर देगा ॥ और

१२ वह तेरी ऊँची ऊँची और मजबूत मजबूत शहरपनाहों को भुकाएगा और नीचा करेगा और भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा ॥

**२६.** उस समय यह गीत यहूदा देश में गाया जाएगा कि हमारे तो एक

हठ नगर है उस का शहरपनाह आर धूस का काम देने के लिये वह उद्धार को उधराता है । फाटकों का खाला

कि सच्चाई का पालन करनेहारी एक धर्मी जाति प्रवेश करे । जिस का मन धीरज धरे हुए है उस की तू पूर्ण

शान्ति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा

किये हुए रहता है । यहोवा पर सदा सर्वदा भरोसा किये हुए रहा क्योंकि यह यहोवा युग युग की चटान उधरा है । वह तो ऊँचे पदवाले को भुका देता जो नगर ऊँचे पर प्रसा है उस का वह नाचे कर देता वह उस की भूमि पर गिराकर मिट्टी ही में मिला देता है । वह दानों के पाँवों और दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा ॥

धर्मी के लिये मार्ग सीधा है तू जो आप सीधा है सो धर्मी के रास्ते को चौरस कर देता है । हे यहोवा सचमुच हम लोग तेरे न्याय के कामों की बाट जोहते आये हैं तेरे नाम और तेरे स्मरण की हमारे जीब में

लालसा बनी रहती है । रात के समय मैं ने अपने जी से तेरी लालसा की है मैं अपने सारे मन से यब के साथ तुझे ढूँढता हूँ क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथिवी पर प्रगट होते हैं तब जगत के रहनेहारे धर्म को सीखते हैं । दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तौभी वह धर्म को

न सीखेगा धर्मराज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का माहात्म्य उसे सूरु नहीं पड़ने का ॥

हे यहोवा तेरा हाथ बढ़ाया हुआ तो है पर वे देखते नहीं वे देखेंगे कि तुम्हें प्रजा के लिये कैसी जलन है और जलाएंगे और तेरे बैरी आग से भस्म होंगे । हे यहोवा तू हमारे लिये शान्ति उधराएगा जो कुछ हम ने किया है सो तू ही ने हमारे लिये किया है । हे हमारे परमेश्वर यहोवा तुम्हें छोड़ और आर स्वामी हम पर प्रभुता करते तो थे पर तेरी कृपा से हम तेरे ही नाम का गुणानुवाद करने पाते हैं । वे मर गये हैं फिर नहीं जीने के उन को मरे बहुत दिन हुए फिर नहीं उठने के तू ने उन का विचार करके उन का ऐसा नाश किया कि वे फिर स्मरण म न आएंगे । तू ने जाति को बढ़ाया हे यहोवा तू ने जाति को बढ़ाया है तू ने अपनी माहमा दिखाई है और इस देश के सब सिवानों का तू ने बढ़ाया है ॥

हे यहोवा दुःख में वे तुम्हें स्मरण करते थे जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रगट करते थे ७ । जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय पेंढती और पीड़ों के कारण चला उठती है हम लोग भी हे यहोवा तेरे साम्हने वैसे ही हाँ गये हैं । हम भी गर्भवती हुए हम भी पेंठे हम मानों वायु ही जने हम ने देश के लिये उद्धार का कोई काम नहीं किया और न जगत के रहनेहारे उत्पन्न हुए । तेरे मरे हुए लोग जीएंगे मेरे मुँहें उठ खड़े होंगे हे भिड़ा में मिले हुआ जाग-

हे यहोवा दुःख में वे तुम्हें स्मरण करते थे जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रगट करते थे ७ । जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय पेंढती और पीड़ों के कारण चला उठती है हम लोग भी हे यहोवा तेरे साम्हने वैसे ही हाँ गये हैं । हम भी गर्भवती हुए हम भी पेंठे हम मानों वायु ही जने हम ने देश के लिये उद्धार का कोई काम नहीं किया और न जगत के रहनेहारे उत्पन्न हुए । तेरे मरे हुए लोग जीएंगे मेरे मुँहें उठ खड़े होंगे हे भिड़ा में मिले हुआ जाग-

हे यहोवा दुःख में वे तुम्हें स्मरण करते थे जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रगट करते थे ७ । जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय पेंढती और पीड़ों के कारण चला उठती है हम लोग भी हे यहोवा तेरे साम्हने वैसे ही हाँ गये हैं । हम भी गर्भवती हुए हम भी पेंठे हम मानों वायु ही जने हम ने देश के लिये उद्धार का कोई काम नहीं किया और न जगत के रहनेहारे उत्पन्न हुए । तेरे मरे हुए लोग जीएंगे मेरे मुँहें उठ खड़े होंगे हे भिड़ा में मिले हुआ जाग-

हे यहोवा दुःख में वे तुम्हें स्मरण करते थे जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रगट करते थे ७ । जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय पेंढती और पीड़ों के कारण चला उठती है हम लोग भी हे यहोवा तेरे साम्हने वैसे ही हाँ गये हैं । हम भी गर्भवती हुए हम भी पेंठे हम मानों वायु ही जने हम ने देश के लिये उद्धार का कोई काम नहीं किया और न जगत के रहनेहारे उत्पन्न हुए । तेरे मरे हुए लोग जीएंगे मेरे मुँहें उठ खड़े होंगे हे भिड़ा में मिले हुआ जाग-

हे यहोवा दुःख में वे तुम्हें स्मरण करते थे जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रगट करते थे ७ । जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय पेंढती और पीड़ों के कारण चला उठती है हम लोग भी हे यहोवा तेरे साम्हने वैसे ही हाँ गये हैं । हम भी गर्भवती हुए हम भी पेंठे हम मानों वायु ही जने हम ने देश के लिये उद्धार का कोई काम नहीं किया और न जगत के रहनेहारे उत्पन्न हुए । तेरे मरे हुए लोग जीएंगे मेरे मुँहें उठ खड़े होंगे हे भिड़ा में मिले हुआ जाग-

हे यहोवा दुःख में वे तुम्हें स्मरण करते थे जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रगट करते थे ७ । जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय पेंढती और पीड़ों के कारण चला उठती है हम लोग भी हे यहोवा तेरे साम्हने वैसे ही हाँ गये हैं । हम भी गर्भवती हुए हम भी पेंठे हम मानों वायु ही जने हम ने देश के लिये उद्धार का कोई काम नहीं किया और न जगत के रहनेहारे उत्पन्न हुए । तेरे मरे हुए लोग जीएंगे मेरे मुँहें उठ खड़े होंगे हे भिड़ा में मिले हुआ जाग-

हे यहोवा दुःख में वे तुम्हें स्मरण करते थे जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रगट करते थे ७ । जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय पेंढती और पीड़ों के कारण चला उठती है हम लोग भी हे यहोवा तेरे साम्हने वैसे ही हाँ गये हैं । हम भी गर्भवती हुए हम भी पेंठे हम मानों वायु ही जने हम ने देश के लिये उद्धार का कोई काम नहीं किया और न जगत के रहनेहारे उत्पन्न हुए । तेरे मरे हुए लोग जीएंगे मेरे मुँहें उठ खड़े होंगे हे भिड़ा में मिले हुआ जाग-

हे यहोवा दुःख में वे तुम्हें स्मरण करते थे जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रगट करते थे ७ । जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय पेंढती और पीड़ों के कारण चला उठती है हम लोग भी हे यहोवा तेरे साम्हने वैसे ही हाँ गये हैं । हम भी गर्भवती हुए हम भी पेंठे हम मानों वायु ही जने हम ने देश के लिये उद्धार का कोई काम नहीं किया और न जगत के रहनेहारे उत्पन्न हुए । तेरे मरे हुए लोग जीएंगे मेरे मुँहें उठ खड़े होंगे हे भिड़ा में मिले हुआ जाग-

(१) मूल में भुका देता । (२) मूल में परदे का जो मुँह ।

(३) मूल में उस के हाथों की चतुर युक्तियों । (४) मूल में जीवा कर देगा ।

(५) मूल में उस को पाँव रौंदा दीन के पाँव कंगालों के कदम ।

(६) मूल में धर्म के देश । (७) मूल में उखल दी ।

(८) का पदे ।

कर जयजयकार करो क्योंकि तेरी ओ । ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथिवी बहुत दिन के मरे हुआ को लौटा देगी ॥

- २० हे मरे लोगो आओ अपनी अपना कोठरों में प्रवेश करके किवाड़ों का बन्द करो जब लौं क्रोध शान्त न हो १  
२१ तब लौं अर्थात् पल भर अपने को छिपा रखेगा । क्योंकि देखो यहाँवा पृथिवी के निवासियों को अधर्म का दण्ड देने के लिये अपने स्थान से चला जाता है और पृथिवी अपना खून उधारेगी और घात किये हुआ का फिर न छिपा रखेगी ॥

**२७. उस समय यहाँवा अपनी कड़ी और बड़ी और पोढ़ तलवार स**

लिव्यातान नाम बेग चलनेहारे सप और लिव्यातान नाम टेढ़े सर्प दोनों का दण्ड देगा और जो अजगर समुद्र में रहता है उस को भी घात करेगा ॥

- २ उस समय एक दाखकी बारी होगी तुम उस का यश  
३ गाओ । मैं यहाँवा उस की रक्षा करता हूँ मैं क्षण क्षण उस को सींचता रहूँगा मैं रात दिन उस की रक्षा करता  
४ रहूँगा न हो कि कोई उस की हानि करने पाए । मेरे मन में जलजलाहट नहीं होती यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझ से लड़ने को खड़े करता तो मैं उन पर पांव बढ़ाकर उन को पूरी रीति से भस्म कर देता,  
५ वा वह मेरे साथ मेल करने वा मेरी शरण ले वह मेरे  
६ साथ मेल कर ले । आनेहारे काल में याकूब जड़ पकड़ेगा और इसाएल फूले फलेगा और उस के फलों से जगत भर जाएगा ॥  
७ क्या उस ने उस को ऐसा मारा जैसा उस ने उस के मारनेहारों को मारा था क्या वह ऐसा घात किया गया  
८ जैसे उस के घात किये हुए घात किये गये हैं । जब तू उस को निकाल देता है तब सोच सोचकर और विचार विचार कर उस को दुःख देता है २ उस ने पुरवाइ बहने के दिन  
९ में उस को प्रचण्ड आयु से अलग कर दिया । सो इस से याकूब के अधर्म का प्रायश्चित्त किया जाएगा और उस के पाप के दूर होने का फल यही होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान जानकर चकनाचूर करेंगे और अशोरा नाम मूर्तियाँ और सुत्ये  
१० की प्रतिमाएँ फिर न खड़ा की जाएंगी । गढ़वाला नगर निर्जन हुआ है वह छोड़ी हुई बस्ती हुआ है और त्यागे हुए जंगल के समान हो गया है वहाँ भड़के चरेंगे और वहीं

(१) मूल में निकल न जाए ।

(२) मूल में उस के साथ भ्रगका किया ।

बैठेंगे और वहीं पेड़ों की डालियों की फुनगी के खा लेंगे । जब उन की शाखाएँ सूख जाएँ तब तोड़ी जाएंगी ११  
स्त्रियाँ आ उन को तोड़कर जला देंगी क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं इसलिये उन का कत्ता उन पर दया न करेगा और उन का रचनेहाग उन पर अनुग्रह न करेगा ॥

उस समय यहाँवा महानद से ले मिस्र के नाले १२ लो अपने अन्न को भाड़ देगा और हे इस्राएलियो तुम एक एक करके बटारे जाओगे ॥

उस समय बड़ा नरसिंगा फूका जाएगा और अरशूर १३ देश में के नाश होनेहारे और मिस्र देश में के बरबस बसाये हुए यरूशलेम में आ आकर पवित्र पर्वत पर यहाँवा वा दण्डवत् करेंगे ॥

**२८. हाय एप्रैम के मतवालों के घमण्ड के**

मुकुट पर हाय उन के सुन्दर भूषणरूपी मुझानेहारे फूल पर जो दाखमधु के पियकड़ों की अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है । सुनो प्रभु के २ एक बलवन्त और सामर्थी है जो आले की वर्षा वा रोग उपजानेहारी आंधी वा उमंडनेहारी प्रचण्ड धारा की नाई बल से उस को भूमि पर गिरा देगा । एप्रैमी मत- ३ वालों के घमण्ड का मुकुट पांथ से लताड़ा जाएगा । और ४ उन का सुन्दर भूषणरूपी मुझानेहारा फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है सो उस अंजोर के समान होगा जो धूपकाल से पहिले पके और देखनेहारा देखते समय हाथ म लेते ही उसे निगल जाए । उस समय अपनी ५ प्रजा के बचे हुआ के लिये सेनाओं का यहाँवा आप ही सुन्दर मुकुट और शाभावमान किरोट उधरेगा । और जो ६ न्याय करन को बैठते हैं उन के लिये न्याय करानेहारा आमा और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को ७ नगर के फाटक से हटा देते हैं उन के लिये वह वीरता उधरेगा ॥

पर ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और ७ मदिरा के द्वारा लड़खड़ाते हैं याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं दाखमधु ने उन्हीं को पी लिया वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते हैं वे दर्शन पाते हुए डगमगाते और विचार करते हुए लटपटाते हैं । और ८ सब भोजे वमन और मेल से भरी हैं उन पर कुछ स्थान नहीं रहा । वह किस का ज्ञान सिखाएगा और किस को ९ अग्नि समाचार का अर्थ समझाएगा क्या उन को जो दूध छुड़ाये हुए और स्तन से अलगाये हुए हैं । आशा १० पर आशा आशा पर आशा नियम पर नियम नियम पर

(३) मूल में लड़ाई को ।

- ११ नियम कहीं थोड़ा कहीं थोड़ा ऐसा होता है? वह तो इन लोगों से अशुद्ध बोली और दूसरी भाषा के द्वारा बात करेगा। उस ने उन से कहा तो था विश्राम इसी से मिलेगा इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो और चैन
- १२ इसी से मिलेगा पर उन्होंने ने सुनना न चाहा। पर यशोवा का बचन उन के पास आशा पर आशा आशा पर आशा नियम पर नियम नियम पर नियम कहीं थोड़ा कहीं थोड़ा इस रीति पर पहुँचेगा जिस से वे ठोकर खा चित्त गिरकर पायल हो जाएँ और फंदे में फँसकर पकड़े जाएँ ॥
- १४ इन कारण हे ठग्य करनेहारे। जो इस यरुशलैम-
- १५ वासी प्रजा के हाकिम हो यशोवा का बचन सुनो। तुम ने तो कहा है कि हम ने मृत्यु से बाँधा बाँधी और अधोलोक से प्रतिशा कराई है इस कारण विपत्ति जब बाढ़ की नाई बढ आए तब हमारे पास न आएगी क्योंकि हम ने झूठ की शरण ली और मिथ्या का आड़ में छिपे हुए हैं। इस कारण प्रभु यशोवा यों कहता है कि सुनो मैं ने सियोन में नेब का एक पत्थर रखा है सो परखा हुआ पत्थर और केने का अनमोल और अति दृढ़ और नेब के योग्य पत्थर है और जो विश्वास रखे उसे
- १७ उतावली करनी न पड़ेगी। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल उद्वारऊंगा और तुम्हारा झूठरूपी शरणस्थान ओलों से बह जायगा और तुम्हारा छिपने का स्थान जल से डूबेगा। और जो बाँधा तुम ने मृत्यु से बाँधी सो टूट जायगी और जो प्रतिशा तुम ने अधोलोक से कराई सो न उदरेगी जब विपत्ति बाढ़ की नाई बढ आए तब
- १९ तुम उस में डूबे ही जाओगे। जब जब वह बढ आए तब तब वह तुम को ले जाएगा वह तो मोर मोर बगन रात दिन बढ़ा करेगी तब इस समाचार का
- २० समझना व्याकुल होने ही का कारण होगा। बिलौना तो टांग फैलान के लिये छेड़ा और ओढ़ना ओढ़ने के लिये तंग है ॥
- २१ क्योंकि यशोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह पराजीम नाम पर्वत पर खड़ा हुआ था और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था वैसा ही वह अब क्रोध दिखाएगा जिस से वह अपना ऐसा काम करे जो बिराना
- २२ है और वह कार्य करे जो अनाखा है। सो अब ठग्य मत मारो नहीं तो तुम्हारे बंधन उसे जायेंगे क्योंकि मैं ने सेनाओं के यशोवा प्रभु से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है ॥
- २३ कान लगाकर मेरी सुनो ध्यान धरकर मेरा बचन

सुनो। क्या हल जोतनेहारा बीज बोने के लिये लगा- २४ तार जोतता रहता है क्या वह सदा धरती के चौरसा और हँगाता रहता है। क्या वह उस के चौरस करके २५ सौफ को नहीं छितराता और जीरे को नहीं बखेता और गेहूँ को पाँस पाँस करके और जब को उस के निब स्थान पर और काँठये गेहूँ को खेत की छोर पर नहीं बोता। क्योंकि उस का परमेश्वर उस को ठीक ठीक करना २६ सिखाता और बतलाता है। दाँवने की गाड़ी से तो २७ सौफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर चलाया नहीं जाता पर सौफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। क्या रोटी का भन्न चूर चूर २८ किया जाता है सो नहीं कोई उस को सदा दाँवता नहीं रहता और न गाड़ी के पहिये और न बाँड़े उस पर चलाता है वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी २९ सेनाओं के यशोवा की आर से होता है वह अन्धत युक्ति और महाबुद्धि दिखता है ॥

## २६. हाय अरीएल पर हाय अरीएल पर उस

नगर पर जिस में दाऊद छावनी किये हुए रहा बरस पर बरस जोड़ते जाओ उत्सव के पर्व अपने अपने समय आते रहें। मैं तो अरीएल को २ मकेती में डालूंगा और रोना पीटना होगा और वह मेरे लेखे सबकुछ अरीएल सा उदरेगा। और मैं चारों ३ ओर तेरे विरुद्ध आवनी करके तुम्हें कोठों से घेर लूंगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। तब तू पारा- ४ कर भूमि में घसाया जाएगा और धूल पर से बालेगा और तेरी बातें भूमि से धीमी धीमी सुनाई देंगी और तेरा बोल भूमि से ओके का सा होगा और तू धूल से गुनगुना गुनगुनाकर बालेगा। तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सुक्ष्म धूलि की नाई और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे का नाई उड़ाई जाएगी और यह बात अचानक पल भर में होगी। सेनाओं का यशोवा बादल ६ गरजाता और भूमि को कम्पाता और महाध्वनि करता और बवयडर और आंधी चलाता और नाश करनेहारी अन्न भड़काता हुआ उस के पास आएगा। और ७ जातियों की सारी भीड़ भाड़ जो अरीएल से युद्ध करेगी और जितने लोग उस के और उस के गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उस के मकेती में डालेंगे सो सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान उदरेंगे। और जैसा ८ कोई मूला स्वप्न में तो देखे कि मैं ला रहा हूँ पर

(१) मल में वहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा।

(२) मूल में लताड़े।

(३) अर्थात् शरवर का अग्निकुण्ड वा शरवर का सिंह।

जागकर क्या देखे कि मेरा पेट जलता? है या कोई प्यासा स्वप्न में तो देखे कि मैं पी रहा हूँ पर जागकर क्या देखे कि मेरा गला सूखा जाता? और मैं प्यासा मरता हूँ? वैसी ही उन सब जातियों की भीड़भाड़ की दशा होगी जो सिन्धुन पर्वत से युद्ध करेंगी ॥

९ विलम्ब करो और चकित हो जाओ अपने तह्म अन्धे करो और अन्धे हो जाओ वे मतवाले तो हैं पर दाखमधु पीने से नहीं वे डगमगाते तो हैं पर मदिरा पीने से नहीं । यहोवा ने तुम को भारी नींद में डाल दिया<sup>१</sup> और उस ने तुम्हारी नभीरूपी आंखों के बन्द कर दिया<sup>२</sup> और तुम्हारे दर्शनीय सिरों पर पर्दा डाला है । सो सारा दर्शन तुम्हारे लिये एक लपेट्टी और छाप की हुई पुस्तक की बातों के समान ठहरा जिसे कोई पढ़े लिख हुए मनुष्य को यह कहकर दे कि इसे पढ़ और वह कहे कि मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर छाप की हुई<sup>३</sup> है, तब वही पुस्तक अनपढ़े को यह कहकर दी जाए कि इसे पढ़ और वह कहे कि मैं तो अनपढ़ा हूँ ॥

१३ प्रभु ने कहा है ये लोग जो मुंह की बातों<sup>४</sup> से मेरा आदर करते हुए समीप तो आते पर अगना मन मुझ से दूर रखते हैं और ये जा मेरा भय मानते हैं सो मनुष्यों की आशा सुन सुनकर मानते हैं,<sup>५</sup> इस कारण सुन मैं इन के साथ अद्भुत काम बरन अति अद्भुत और अचंचमे का काम करूंगा तब इन के बुद्धिमानों की बुद्धि नाश होगी और इन के प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी<sup>७</sup> ॥

१५ हाय उन पर जो अगना युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते<sup>८</sup> और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हम को कौन देखता और हम को कौन जानता है । हाय तुम्हारी कैसी उलटी समझ है क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा क्या कार्य अपने करता के विषय कहेगा कि उस ने मुझ नहीं बनाया वा रखा<sup>९</sup> हुई वस्तु अपने रखनेहारे के विषय कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता । क्या अब बहुत ही थोड़े दिन के भीते पर लबानेन फिर फलदाई बारी न बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी । और उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता सो देखने लगेंगे<sup>९</sup> । और नम्र

लोग यहोवा के कारण अधिक आनन्दित और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे । क्योंकि २० उग्रवी फिर न रहेंगे और ठूटा करनेहारों का अन्त होगा और जो अनयं काम करने के लिये जागते रहते हैं, और जो मनुष्यों को बचन से पाप में फँसाते हैं २१ और उन क लिये जा सभा<sup>१०</sup> में उलहना देते हैं फटा लगाते और धर्मी को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं सो सब मिट जाएंगे । इस कारण इस्राहीम का कुड़ाने- २२ हारा यहोवा याकूब के बराने के विषय यों कहता है कि याकूब को फिर लजाना न पड़ेगा और न उस का मुख फिर नीचा<sup>११</sup> होगा । और जब उस के सन्तान मेरा काम २३ देखेंगे जो मैं उन के मध्य में करूंगा तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे वे याकूब के पवित्र को पवित्र ही ठहराएंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति मय मानेंगे । उस समय जिन का मन भटक गया सो बुद्धि सीख लेंगे २४ और जो कुड़कुड़ाते हैं सो शिक्षा पाएंगे ॥

### ३०. यहोवा की यह वाणी है कि हाय उन

बलवा करनेहारे लक्षकों पर जो युक्ति करते तो हैं पर मेरी ओर से नहीं और वाचा बाँधते तो हैं पर वह मेरे आत्मा की सिखाई हुई नहीं और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं । वे मुझ से बिन पूछे मिस्र को चले २ जाते हैं कि फिरौन के शरण स्थान से बलवान् ही और मिस्र की छाया में शरण लें । फिरौन का शरणस्थान तुम्हारे ३ आशा टूटने का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निन्दा का कारण होगा । उस के हाकिम सोअन ४ में तो आये हैं और उस के दूत अब हानेस में पहुँचे हैं । वे सब एक ऐसी जाति के कारण लजाएंगे जिस से उन ५ का कुछ लाभ न होगा और वह सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होगी ॥

दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी बचन । वे ६ अपनी धन सम्पत्ति को जवान गदहों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊंटों के कूबड़ों पर लादे हुए संकट और सकेती के देश में होकर जहाँ<sup>१२</sup> सिंह और सिंहनी नाग और उड़नेहारे तेज विषवाले सर्प रहते हैं उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन से उन का लाभ न होगा । क्योंकि मिस्र का सहायता करना व्यर्थ है और अकारण ७ होगा इस कारण मैं ने उस को बैठा रहनेहारा रहव<sup>१३</sup> कहा है । अब जाकर इस को उन के साम्हने पत्तर पर खोद ८

(१) मूल म शब्द । (२) मूल म कि मैं थका । (३) मूल में मेरा जीव लालसा करता है । (४) मूल में तुम पर भारी नींद का आत्मा उण्डेला । (५) मूल में मुंह और होंठों । (६) मूल में सो मनुष्यों की सिखाई हुई भाषा है । (७) मूल में छिप जायगी । (८) मूल में नीचे जाते हैं । (९) मूल में अर्न्धी की आंखें तिमिर और अन्धकार से देखेंगी ।

(१०) मूल में फाटक । (११) मूल में विवरण । (१२) मूल में जिन से । (१३) अर्णव अभिमान ।

और पुस्तक में लिख कि यह आनेहारे दिनों के लिये  
 १ सदा सर्वदा लो बना रहे । क्योंकि वे बलावा करनेहारे  
 लोम और मूठ बोलनेहारे लड़के हैं जो यहीवा की  
 २० शिक्षा को सुनने नहीं चाहते । वे दर्शियों से कहते हैं  
 कि दशा का काम मत करो और नवियों से कहते हैं  
 कि हमारे लिये ठीक नबूवत मत करो हम से चिकनी  
 २१ चुपड़ी बातें बोलो धोखा देनेहारी नबूवत करो । मार्ग  
 से मुझे पथ से हटो और इस्राएल के पवित्र को हमारे  
 २२ साम्हने के दूर करे । इस कारण इस्राएल का पवित्र  
 यों कहता है कि तुम लांग जा मेरे इस वचन को  
 निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा  
 २३ करके उन्हीं पर टेक लगाते हो । इस कारण यह अधर्म  
 तुम्हारे लिये ऐसा होगा जैसा ऊंची भीत का फूला हुआ  
 भाग जो फटकर गिरने पर हो और वह अचानक पल भर  
 २४ में टूटकर गिर पड़े । और वह उस को ऐसा नाश करेगा  
 जैसा कोई मिट्टी का घड़ा छोड़ बिना ऐसा चकनाचूर करे  
 कि उस के टुकड़ों में ऐसा भां ठीकरा न रहे जिस से  
 अंग्रेठी में से आग ली जाए वा गड़हे में से जल निकाला  
 २५ जाए । प्रभु यहोवा इस्राएल के पवित्र ने यों कहा था  
 कि लौटने और शान्त रहने से तुम्हारा उद्धार होगा चुप  
 चार रहने और भरोसा रखने से तुम्हारी वीरता ठहरेगी  
 २६ पर तुम ने ऐसा करना नहीं चाहा । तुम ने कहा कि  
 नहीं हम घोड़ों पर भागेंगे इस कारण तुम्हें भागना  
 पड़ेगा और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे इस  
 २७ कारण तुम्हारा पीछा करनेहारे तेज चलेंगे । एक हजार  
 एक ही की धमकी से भागेंगे तुम पांच ही की धमकी से  
 भागोगे और अन्त का तुम पहाड़ की चोटी पर के डरडे  
 वा टीले के ऊपर की ध्वजा के समान विरले रह जाओगे ॥  
 २८ और यहोवा इसलिये बिलम्ब करेगा कि तुम पर  
 अनुग्रह करे और इसलिये ऊंचे पर चढ़ेगा कि तुम पर  
 दया करे क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है सो क्या ही  
 २९ धन्य हैं वे सब जो उस पर आशा धर रहते हैं । प्रजा के  
 लोग तो यरूशलेम अर्थात् सिम्योन में बसे रहेंगे तू फिर  
 कभी न रोएगा वह तेरी दोहाई सुनते ही तुझ पर निश्चय  
 २० अनुग्रह करेगा सुनते ही वह तेरी मानेगा । और चाहे  
 प्रभु तुम्हारी रोटी की कमी और जल की लगी करे तौभी  
 तुम्हारे उद्देशक फिर न छिप जाएंगे और तुम अपनी आंखों  
 २१ से अपने उपदेशकों को देखते रहेगे । और जब कभी  
 तुम दाहिनी वा बाईं ओर मुड़ने लगे तब तुम्हारे पीछे  
 से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है  
 २२ इसी पर चलो । और तुम वह चांदा जिस से तुम्हारी

(१) मूल में बन्द ।

खुदी हुई मूर्तियां मदी हैं और वह सोना जिस से तुम्हारी  
 ढली हुई मूर्तियां आभूषित हैं अमुक्त करोगे तुम  
 उन को मैले कुचैले वस्त्र की नाई फेंक दोगे और  
 कहोगे कि दूर हो । और वह तेरे बीज के लिये जल २३  
 बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की  
 उपज भी अच्छी वेगा और वह उत्तम और स्वादिष्ट  
 होगी और उस समय तुम्हारे दोरों को लम्बी चौड़ी चराई  
 मिलेगी । बैल और गदहे जो तुम्हारी खेती के काम में २४  
 आएंगे सो सूय और डलिया से उसाया हुआ स्वादह  
 चारा खाएंगे । और उस महासंहार के समय जब गुम्मत २५  
 गिर पड़ेंगे सय ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर  
 नालियां और सोते पाये जाएंगे । उस समय जब यहावा २६  
 अपनी प्रजा के लोगों का भाव बांधेगा और उन की चोट  
 चगी करेगा तब चन्द्रमा का प्रकाश सूर्य का सा हो  
 जाएगा और सूर्य का प्रकाश सातगुना होगा अर्थात्  
 अठवारे भर का प्रकाश एक दिन में होगा ॥

देखो यहोवा का नाम भड़के हुये कोप और घने धूप २७  
 के साथ दूर से आता है उस के हाँठ क्रोध से भरे हुए  
 और उस की जीभ भस्म करनेहारी आग के समान है ।  
 और उस की सांस ऐसी उमएडनेहारी नदी के समान है २८  
 जो गले तक पहुँचती है वह सब जातियों को नाश के सूय  
 से फटकेंगा और देश देश के लोगों को भटकान के लिये  
 उन के मुह में लगाम लगाया जाएगा । तुम पवित्र २९  
 पर्वत की रात का सा गीत गाओगे, आर जैसे लोग  
 यहोवा के पर्वत की ओर उसी से मिलने को जो  
 इस्राएल की चटान ठहरा है बांसुती बजाते हुए जाते हैं  
 वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनन्द होगा । पर यहोवा ३०  
 अपनी प्रतापवाली वाणी सुनाएगा और अपना कोप  
 भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ और  
 प्रचण्ड आधी और अत वर्षा और आले गिरने के साथ  
 अपना भुजबल दिखाएगा । और अश्शूर यहोवा के ३१  
 शब्द की शक्ति से हार जाएगा वह उसे सोटे से मारेगा ।  
 और जब जब यहोवा उस को मनठाना दरड देगा ३२  
 तब तब साथ ही डरू और वाष्पा बजेंगी और वह हाथ  
 बढ़ा बढ़ाकर उस को लगातार मारता रहेगा । और बहुत ३३  
 काल से फूटने का स्थान तैयार किया गया है वह रास  
 ही के लिये ठहराया गया है वह लम्बा चौड़ा और  
 गांहरा भी बनाया गया है वहाँ की चिता में आग और  
 बहुत सी लकड़ी है यहोवा की सांस जलती हुई गन्धक  
 की धारा की नाई उस को सुलगाएगी ॥

(१) मूल में जमकों ।

(२) मूल में अपनी भुजा का उतरना ।

(४) मूल में उस पर नेबाला बरबद रहेगा ।

### ३१. हाथ उन पर जो मिस्र को सहायता

पाने के लिये जाते हैं और  
 घोड़े का आसरा करते हैं और रथों पर भरोसा रखते  
 क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वे अति  
 बलवान् हैं पर इस्राएल के पवित्र की ओर इष्टि नहीं  
 करते और न यहोवा की सेवा में लगते हैं । वह भी  
 बुद्धिमान् है और दुःख देगा और अपने वचन न  
 टालेगा वह उठकर कुकार्मियों के धराने पर और  
 अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा ।  
 मिस्री लोग तो ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं और उन के  
 घोड़े आत्मा नहीं शरीर ही हैं और जब यहोवा हाथ  
 बढ़ाएगा तब सहायता करनेहारों और सहायता चाहने-  
 हारों दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और वे सब के सब  
 एक संग विलाय जाएंगे । फिर यहोवा ने सुन्न से यों  
 कहा है कि जिस प्रकार सिंह वा जवान सिंह अपने अंतर  
 पर गुर्गाता है और चाहे चरवाहे इकट्ठे होकर उस के  
 विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए तभी वह उन के बोल से न  
 घबराएगा न उन के कोलाहल के कारण दबेगा उसी  
 प्रकार सेनाओं का यहोवा सिधोन पर्वत और यरूशलेम  
 की पहाड़ों पर युद्ध करने का उतरेगा । पंख फैलाई  
 हुई चिड़ियाओं की नाई सेनाओं का यहोवा यरूशलेम  
 की रक्षा करेगा वह उन की रक्षा करके बचाएगा और  
 उस को बिन छूए ही उदार करेगा । हे इस्राएलियो  
 जिस के विरुद्ध तुम ने भारी बलवा किया उसी की  
 ओर फिरो । उस समय तुम लोग सोने चांदी की  
 अपनी अपनी मूर्तियों से जिन्हें तुम बनाकर पापी  
 हो गये हो धिन करोगे । तब अशूर उस तलवार से  
 गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं वह उस तलवार  
 का कौर हो जाएगा जो आदमी की नहीं और वह  
 तलवार के सांभने से भागेगा और उस के जवान  
 बेगार में पकड़े जाएंगे । और उस की टांग भय के मारे  
 जाती रहेगी और उस के हाकिम ध्वजा के कारण  
 विस्मित होंगे यहोवा जिस की अग्नि सिधोन में और  
 जिस का भट्टा यरूशलेम में है उसी की यह  
 वाणी है ॥

### ३२. सुनो एक राजा धर्म से राज्य

करेगा और हाकिम न्याय से  
 हुकूमत करेंगे । और एक पुरुष मानो वायु से झिपने  
 का स्थान और बीछार से आइ होगा वह मानो निर्जल

देश में जल की नास्तियां और मानो तप्त भूमि में बड़ी  
 टांग की छाया होगा । और देखनेहारों की आँखें धुन्धली  
 न होंगी और सुननेहारों के कान लगे रहेंगे । और  
 उतावलों के मन ज्ञान की बातें सम्भकेगे और तुतलानेहारों  
 की जीम फूर्ती से साफ बोलेंगी । मूठ फिर उदार  
 न कहाएगा और न डग प्रतिष्ठित कहा जाएगा ।  
 क्योंकि मूठ तो मूठता ही की बातें बोलता और मन  
 में अनर्थ ही की बातें गड़ता रहता है कि बंध बिन  
 भक्ति के काम करे और यहोवा के विरुद्ध मूठ कहे  
 और भुले का भुला ही रहने दे और प्यासे का जल  
 रोक रखे । उग के उपाय बुरे हाते हैं वह दुष्ट युक्तियां  
 करता है कि जब दरिद्र लोग ठीक बोलते ही तब भी  
 नम्रों को उस की झूठी बातों में फंसाए । पर उदार तो  
 उदारता ही की युक्तियां निकालता है वह तो उदारता  
 के कारण स्थिर रहेगा ॥

हे सुखी लियो उठकर मेरी सुने; हे निश्चिन्त  
 लियो मेरे वचन की ओर कान लगाओ । हे निश्चिन्त  
 लियो बरस दिन से अधिक तुम विकल रहेगी क्योंकि  
 तोड़ने का दाख न होगा और न किसी भाति के फल  
 हाथ लगेंगे । हे सुखी लियो परधराओ हे निश्चिन्त लियो  
 विकल हो अपने अपने बख उतारकर अपनी अपनी  
 कमर में टट कसो । लोग मनभाऊ खेतों और फलवन्त  
 दाखलताओं के लिये छाती पीटग । मेरे लोगों के बरन  
 हुलसनेहारों नगर के सब हर्ष भरे बरों में भी भाति  
 भाति के कटीले पेड़ उगजगें । क्योंकि राजभवन त्यागा  
 जाएगा कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा  
 और पहाड़ी और पहाड़ों का घर सदा के लिये मांटे  
 और बनेले गदहों का विहारस्थान और धरैले पशुओं  
 की चराई तब लो बना रहेगा, जब लो आत्मा ऊपर  
 से हम पर उरखेला न जाए और जगल फलदायक बारी  
 न बने और फलदायक बारी बन न गिनी जाए । तब  
 उस जङ्गल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी  
 में धर्म रहेगा । और धर्म का फल शान्त और इस  
 का परिणाम सदा का चैन और निश्चिन्त रहना होगा ।  
 और मेरे लोग शान्ति से निश्चिन्त रहने के स्थानों में  
 और सुख और विश्राम के स्थानों में रहेंगे । पर आले  
 गिरेंगे और वन के वृक्ष नाश होंगे और नगर पूरी रीति  
 से चौपट हो जाएगा । क्या ही धन्य हो तुम लोग जो  
 सब जलाशयो के पास बीज बोते और बेलों और गदहों  
 को चलाते हो ॥

(१) मूल में और लांघकर । (२) मूल में गहिरा करके ।

(३) मूल में जिन्हें पुन्हारे हाथ ।

(४) मूल में गदहों के पैर भेजते ।

### ३३. हाथ ठुकर छुटते पर जो लूटा नहीं गया

- हाथ ठुकर विश्वासघाती पर जिस के साथ विश्वासघात नहीं किया गया जब तू लूट चुके तब तू लूटा जायगा और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जायगा । हे यद्दोवा हम लोगों पर अनुग्रह कर क्योंकि हम तेरी ही बात जोहते आये हैं तू मोर मोर को उन का भुजबल और संकट के समय हमारा उद्धारकर्ता ठहर । हुज्जद सुनते ही देश देश के लोग भाग गये तेरे उठने पर अन्यायजितियाँ तिसर तिसर हुई । और जैसे टिड्डियाँ चट करती हैं वैसे ही तुम्हारी लूट चट की जायगी और जैसे टिड्डियाँ टूट पड़ती हैं वैसे ही वे उस पर टूट पड़ेंगे । यद्दोवा महान् दुष्मा है वह ऊँचे पर रहता है उस ने सिव्योन को न्याय और धर्म से परपूया किया है । और उद्धार और बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी और यद्दोवा का भय उस का धन होगा ॥
- ७ सुनो उन के शूरवीर बाहर चिन्ता रहे हैं संधि के दल बिलक बिलक रो रहे हैं । राजमार्ग सुनसान पड़े हैं अब उन पर बटोही नहीं चलते उस ने बाचा को टाल दिया उस ने नगरो को तुच्छ जाना उस ने मनुष्य को कुच्छ न समझा । पृथिवी बिलाय करती और मुर्का गई है लकानोन कुम्हला गया और उस पर लियाही छा गई है शारोन मरुभूमि के समान हो गया और बाशान और कर्मेल में पतझड़ हो रहा है । यद्दोवा कह रहा है कि अब मैं उठंगा अब मैं अगना प्रताप दिखाऊंगा । अब मैं मूढान् ठहरूंगा । तुम्हें सुली पास का पेट रहगा तुम भूली जनागे तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी । देश देश के लोग फूँके हुए चूने के समान हो जायेंगे और कटे हुए कटीले पैरो की नाई आग में जलाए जायेंगे ॥
- ११ हे दूर दूर के लोगो सुनो कि मैं ने क्या किया है और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो ।
- १४ सिव्योन में के पापी धरधर गये भकिहीनों को कपकपी लगी है हम में से कौन प्रचरड आग के साथ रह सकता हम में से कौन उस आग के साथ रह सकता जो कभी न बुकेगी । जो धर्म से चलता और सौधी बातें बालता और अंधेर के लाभ से चिन रखता और घूस नहीं लेता और खून की बात सुनने से कान बन्द करता और कराई देखने से आँख मुद लेता है, १६ वही ऊँचे स्थानों में बास करेगा वह दांगों में के गढ़ों में शरण लिये हुए रहेगा उस को शेटा मिलेगी और पानी

(१) मूल में अपने का ऊँचा करेगा । (२) मूल में घूस धाँहने से अपने हाथ भटक देता ।

की बटी कमी न होगी । तू अपनी आँखों से राजा को उस की सुन्दरता में निहारेगा और लम्बे चौड़े देश को देखेगा । तू भय के दिनों को स्मरण करेगा कर का गिनने-हारा और तीरनेहारा कहाँ रहा गुम्मतों का गिननेहारा कहाँ रहा । तू उन निर्दय लोगों को न देखेगा जिन की कठिन भाषा तू नहीं समझता और जिन की लड़बड़ाती जीभ की तू नहीं बूझता । हमारे पब के नगर सिव्योन पर दृष्टि कर तू अपनी आँखों से यरुशलेम को देखेगा कि वह विश्राम का स्थान और ऐसा तम्बू है जो कभी गिराफ्त न जायगा और जिस का कोई खटा कभी उखाड़ा न जायगा और कोई रक्षी कभी न टूटेगा । और वहाँ महाप्रतापी यद्दोवा हमारी ओर रहेगा तो बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा जिस में डाँवाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उस के पास होकर जायगा । क्योंकि यद्दोवा हमारा न्यायी यद्दोवा हमारा हाकिम यद्दोवा हमारा राजा है वही हमारा उद्धार करेगा । तेरी रस्सियाँ टाँली हुई वे मस्तूल की जड़ को हट न कर सके और न पाल को चढ़ा सके तब बड़ी लूट छीनकर बांटी गई लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए । और कोई निवासी न करेगा कि मैं रोगी हूँ और जो लोग इस में रहेंगे उन का अधर्म क्षमा किया जायगा ॥

### ३४. हे जाति जाति के लोगो सुनने को

निकट आओ और हे राज्य राज्य के लोगो ध्यान से सुनो पृथिवी और जो कुछ उस में है जगत और जो कुछ उस में उत्पन्न होता है सो सुनो । यद्दोवा सब जातियों पर कोप कर रहा है और उन की सारी सेना पर उस की जलजलाहट भड़की हुई है उस ने उन को सत्यानाश किया और संहार होने को छोड़ दिया है । उन में के मारे हुए फंक दिये जायेंगे और उनकी लोथों की दुर्गंध उठेगी और उन के लोह से पहाड़ गल जायेंगे । आर आकाश में का सारा गण्य जाता रहेगा और आकाश कागज की नाई लपेटा जायगा और जैसे दाखलता वा अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुर्का मुर्काकर जाते रहते हैं वैसे ही उस का सारा गण्य धंधला होकर जाता रहेगा । क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर टूट हुई देखो वह न्याय करने का एदोम पर और उन पर पड़ेगी जिन पर मेरा साप है । यद्दोवा की तलवार लोह से भर गई वह चर्बी से और मेड़ों के बच्चों और बकरो के लोह से और मेड़ों के गुदों की चर्बी से

(३) मूल में उसका पानी अटल है ।

(४) मूल में गहिरें होंठवाले लोग ।

दुत हुई है क्योंकि बोखा नगर में यहोवा का एक यश  
 ७ और एदोम देश में बड़ा संहार है । और उन के संग  
 बनैले और चरैले बैल और सांड गिर जाएंगे और उन  
 की भूमि लोहू से छूक जाएगी और वहां की मिट्टी चर्बी  
 ८ से आषाएगी । क्योंकि पलटा लेने का यहोवा का एक  
 दिन और सियोन का मुकद्दमा चुकाने के लिये बदला  
 ९ देने को एक बरस ठहराया हुआ है । और एदोम की  
 नदियां राल से और उस की मिट्टी गंधक से बदल  
 जाएगी और उस की भूमि जलती हुई राल बन जाएगी ।  
 १० वह रात दिन न बुझेगी उस का धूआ सदा लों उठता  
 रहेगा वह युगयुग उजाड़ पड़ा रहेगा सदा लों कोई उस  
 ११ में से होकर न चलेगा । उस में धनेशपत्नी और साही  
 पाये जाएंगे और उल्लू और कौबे का बसेरा होगा और  
 वह उस पर गड़बड़ की डारी और सुनसानी का साहूल<sup>१</sup>  
 १२ तानेगा । वहां न ती रईस होंगे और न ऐसा कोई हागा  
 जो राज्य करने को ठहराया<sup>२</sup> जाए और उस के सारे  
 १३ हाकिमों का अन्त होगा । और उस के महलों में कटीले  
 पेड़ और गढ़ों में बिच्छू पौधे और झाड़ उगेंगे और वह  
 गीदड़ों का वासस्थान और शूतमुर्गों का आंगन हो  
 १४ जाएगा । वहां निर्जल देश के जन्तु सियारों के संग  
 मिलकर बसेंगे और रांआर जन्तु एक दूसरे को बुलाएंगे  
 और वहां लीलीत नाम जन्तु वासस्थान पाकर चैन से  
 १५ रहेगा । वहां सापिन बाम्बी चुन अण्डे देकर उन्हें सेवेगी  
 और अपने नीचे<sup>३</sup> बटार लेगी और वहां गिद्धिनें अपनी  
 १६ अपनी साथिन के साथ इकट्ठी रहेंगी । यहांवा की पुस्तक  
 से हूठकर पढ़ा इन में से एक भी बिन आये न रहेगी  
 और न बिना साथिन होगी क्योंकि मैं ने अपने मुह  
 में यह आशा दी और उसी के आत्मा ने उन्हें इकट्ठा  
 १७ किया है । और उसी ने उन के लिये चिट्ठी डाली और  
 उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उन  
 के लिये बांट दिया है और वह सदा लों उन का बना  
 रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी लों उस में बसे  
 रहेंगे ॥

### ३५. जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित

होंगे और मरुभूमि मगन  
 २ होकर केशर की नाई फूलेगी । वह तो अत्यन्त प्रफुल्लित  
 होगी और आनन्द के साथ जयजयकार करेगी उस की  
 शोभा लबानोन की सां होगी और वह कर्मल और

(१) मूल में पत्थर । (२) मूल में बुलाया ।

(३) मूल में अपनी छाया में ।

शारेण के तुल्य तेजोमय हो जाएगी वे यहोवा की शोभा  
 और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे ॥

दोले हाथो को हड़ और थरथराते घुटनों को ३  
 स्थिर करो । घबराहारे से कहो कि दियाव बाघो ४  
 मत डरो देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने को बरन  
 परमेश्वर के योग्य बदला लेने को आएगा वही आकर  
 तुम्हारा उद्धार करेगा । तब अन्धों की आंखें खोली ५  
 जाएंगी और बहिरो के कान भी खोजे जाएंगे । तब ६  
 लगड़ा हरिण की सी चौकाड़ियां भरेगा और गूंग अपनी  
 जीभ से जयजयकार करेंगे और जंगल में जल के सोते ७  
 फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी । और  
 मृगतृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते ८  
 फूटेंगे और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उस में  
 घास और नरकट और सरकंडे होंगे । और वहां एक ९  
 सड़क अर्थात् मार्ग हागा और उस का नाम पवित्र  
 मार्ग होगा कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा  
 वह तो उन्हीं के लिये रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे १०  
 सो चाहे मूल भी हों तौभी भटक न जाएंगे । वहां सिंह १  
 न होगा और कोई हिसक जन्तु चढ़ने न पाएगा ऐसे  
 वहां मिलेंगे नहीं पर छुड़ाये हुए लोग उस में चलेंगे ।  
 और यहोवा के छुड़ाये हुए लोग लौटकर जयजयकार १०  
 करते हुए सियोन में आएंगे और उन के सिर पर  
 सदा का आनन्द होगा वे हर्ष और आनन्द पाएंगे और  
 शोक और लम्बी सांस का लेना जाता रहेगा ॥

### ३६. हिजकियाह राजा के चौदहवें बरस

में अशूर के राजा  
 सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई  
 करके उन को ले लिया । और अशूर के राजा २  
 ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरुशलेम के  
 पास हिजकियाह राजा के अवरुद्ध भेज दिया और वह  
 उपरले पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की  
 सड़क पर जाकर खड़ा हुआ । तब हिजकियाह का पुत्र ३  
 एल्युकीम जा राजघराने के काम पर था और शेब्ना  
 जो मंत्रा था और आसाप का पुत्र येआह जो इतिहास  
 का लिखनेहारा था वे तीनों उस से मिलने का बाहर ४  
 निकल गये । रबशाके ने उन से कहा हिजकियाह से  
 कहो कि महाराजाधिराज अशूर का राजा यों कहता ५  
 है कि तू यह क्या भरोसा करता है । मेरा कहना यह है  
 कि युद्ध के लिये पराक्रम और युक्ति केवल बात ही बात ६  
 है अब तू किस पर भरोसा रखता है कि तू ने मुझ से  
 बलवा किया है । सुन तू तो उस कुचले हुए नरकट ६  
 अर्थात् मिस्र पर भरोसा रखता है उस पर यदि कोई टेक



सगाप तो वह उस के हाथ में चुमकर छेदेगा । मिस  
का राजा फिरीन अपने सब भरोसा रखनेहारो के लिये  
७ ऐसा ही हाता है । फिर यदि तू मुझ से कहे कि  
हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है तो  
क्या वह वहाँ नहीं है कि जिस के ऊँचे स्थानों और वादियों  
को दूर करके यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा  
८ कि तुम इसी वेदी के सामने दण्डवत् करना । सो अब  
मेरे स्वामी अशशूर के राजा के पास कुछ बन्धक रख  
तब मैं तुम्हें दो हजार घोड़े दूँगा क्या तू उन पर सवार  
९ चढ़ा सकेगा कि नहीं । फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से  
छोटे कर्मचारी का भी कहा नकारकर ब्योकर रयो  
१० और सवारा के लिये मिस पर भरोसा रखा है । क्या  
मैं ने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिये  
चढ़ाई की है यहोवा ने मुझ से कहा है कि उस देश  
११ पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे । तब एल्याकीम और  
शेब्ना और योआह ने रबशाके से कहा अपने दासों से  
अरामी भाषा में बातें कर क्योंकि हम उसे समझते हैं और  
हम से यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठे हुए लोगों के  
१२ सुनते बातें न कर । रबशाके ने कहा क्या मेरे स्वामी ने  
मुझे तेरे स्वामी ही के वाते तेरे ही पास ये बातें कहने का  
मेजा है क्या उस ने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा  
जो शहरपनाह पर बैठे हैं इसलिये कि तुम्हारे सग उन  
को भी अपनी विद्या खाना और अपना मूत्र पीना पड़े ।  
१३ तब रबशाके ने खड़ा हो यहूदी भाषा में ऊँचे शब्द से  
कहा महाराजाधिराज अशशूर के राजा की बात सुनो ।  
१४ राजा यो कहता है कि हिजकियाह तुम को भुलाने न पाए  
१५ क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा । और हिजकियाह तुम  
से यह कहकर यहोवा पर भी भरोसा कराने न पाए कि  
यहोवा निश्चय हम को बचाएगा और यह नगर अशशूर  
१६ के राजा के वश में न पड़ेगा । हिजकियाह की मत सुनो  
अशशूर का राजा कहता है कि भेट भेज कर मुझे प्रसन्न  
करो और मेरे पास निकल आओ तब अपनी अपनी  
दाखलता और अंजीर के दूध के फल खाओ और अपने  
१७ अपने कुएँ का पानी पीओ । पीछे मैं आकर तुम को  
ऐसे देश में ले जाऊँगा जा तुम्हारे देश के समान अनाज  
और नये दाखलधु का देश गेठी और दाखलारियों का  
१८ देश है । ऐसा न हो कि हिजकियाह यह कहकर तुम  
को बचाए कि यहोवा हम को बचाएगा क्या और  
जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशशूर के  
१९ राजा के हाथ से बचाया है । इमात और अर्पाद के

देवता कहाँ रहे सपर्वे के देवता कहाँ रहे क्या उन्हों  
ने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया । देश देश के सब २०  
देवताओं में से ऐसा कौन है जिस ने अपने देश को  
मेरे हाथ से बचाया हो फिर क्या यहोवा यरूशलेम को  
मेरे हाथ से बचाएगा । पर वे चुप रहे और उस के २१  
उत्तर में एक बात न कही ब्योकि राजा की ऐसी आशा  
थी कि उस को उत्तर न देना । तब हिजकियाह का २२  
पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर था और शेब्ना  
जो मंत्री था और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास  
का लिखनेहारा था इन्होंने हिजकियाह के पास बख  
फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई ॥

### ३७ जब हिजकियाह राजा ने यह सुना

तब वह अपने बख फाड़ टाट  
ओढ़कर यहोवा के भवन में गया । और उस ने एल्या- २  
कीम का जा राजघराने के काम पर था और शेब्ना  
मंत्री का और याजकों के पुत्रियों को जो सब टाट ओढ़े  
हुए थे आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज  
दिया । उन्होने उस से कहा हिजकियाह यो कहता है ३  
कि आज का दिन संकट और उलहने और निन्दा का  
दिन है बच्चे जन्मने पर हुए पर जननी को जनने का  
बल न रहा । क्या जानिये कि तेरा परमेश्वर यहोवा ४  
रबशाके की बातें सुने जिस उस के स्वामी अशशूर के  
राजा ने जाबते परमेश्वर की निन्दा करने का मेजा है  
और जा बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनाई उन्हें दपटे  
सो तू इन बच्चे हुआ के लिये जो रह गये हैं प्रार्थना  
कर ५ । सो हिजकियाह राजा के कर्मचारी यशायाह के  
पास आये । तब यशायाह ने उन से कहा अपने स्वामी ६  
से कहो कि यहोवा यो कहता है कि जो बचन तू ने  
सुने हैं जिन के द्वारा अशशूर के राजा के जनों ने मेरी  
निन्दा की है उन के कारण मत डर । सुन मैं उस के ७  
मन में प्ररणा करूँगा कि वह कुछ समाचार सुनकर  
अपने देश को लौट जाए और मैं उस को उसी के देश  
में तलवार से मरवा डालूँगा ॥

सो रबशाके ने लौटकर अशशूर के राजा को लिब्ना ८  
नगर से युद्ध करते पाया क्योंकि उस ने सुना था कि  
वह लाकीश के पास से उठ गया है । और उस ने ९  
कूश के राजा तिर्हाका के विषय यह सुना कि वह मुझ  
से लड़ने को निकला है तब उस ने हिजकियाह के पास  
पूतों को यह कहकर भेजा कि, तुम यहूदा के राजा हिज- १०  
कियाह से यो कहना कि तेरा परमेश्वर जिस का तू

(१) मूल में कर्मचारीयों में से एक अधिपति का भी सुँह फेरके ।  
(२) मूल में मेरे साथ आशीर्वाद करो ।

(३) मूल में प्रार्थना उठा ।

भरोसा करता है यह कहकर तुम्हें धोखा न देने पाए कि  
 ११ यरूशलेम अशूर के राजा के बश में न पड़ेगा । देख  
 तू ने तो सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से  
 १२ कैसा किया है कि उन्हें सत्यानाश ही किया है फिर  
 क्या तू बचेगा । गोजान और हारान और रेसेम और  
 तलहार में रहनेवाले एदेनी जिन जातियों को मेरे  
 १३ पुरखाओं ने नारा किया क्या उन में से किसी जाति के  
 अपाद के राजा और समरैम नगर का राजा और हेना  
 १४ और इष्वा के राजा ये सब कहा रहे । सो इस पत्री को  
 हजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा तब यहोवा के  
 मन्त्र में जाकर पत्री का यहोवा के साम्हन पैला दिया,  
 १५, १६ और यहोवा से यह प्रार्थना की कि, हे सेनाओं के  
 यहोवा हे करुबीं पर विराजनेवाले इस्राएल के परमेश्वर  
 पृथिवी के सारे राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है  
 १७ आकाश और पृथिवी को तू ही ने बनाया है । हे यहोवा  
 कान लगाकर सुन हे यहोवा आंख खोलकर देख और  
 सन्हेरीब के सारे वचना को सुन ले जिस न जीवते पर-  
 १८ मेश्वर की निन्दा करने को लिख भेजा है । हे यहोवा सच  
 तो है कि अशूर के राजाओं न सब जातियों के देशों  
 १९ को उजाड़ा है, और उन के देवताओं को भाग में  
 भोंका है क्योंकि वे ईश्वर न थे वे मनुष्यों के बनाये  
 हुए काठ और पत्थर ही के थे इस कारण वे उन को  
 २० नाश करने पाए । सो अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा  
 तू हमें उस के हाथ से बचा कि पृथिवी के राज्य राज्य  
 के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है ।  
 २१ तब अमोस के पुत्र यशायाह ने हजकिय्याह के  
 पास यह कहला भेजा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा  
 यां कहता है कि तू ने जो अशूर के राजा सन्हेरीब  
 २२ के विषय मुझ से प्रार्थना की है, सो उस के विषय  
 में यहोवा न यह वचन कहा है कि सियोन की  
 कुमारी कन्या तुम्हें तुच्छ जानती और ठुंठी में उड़ाती  
 २३ है यरूशलेम की पुत्रों तुम्हें पर सिर हिलाती है । तू ने  
 जो नामधराई और निन्दा की है सो किस की की है  
 और तू जो बड़ा बोल बोलता और धमकाया किया है सो  
 किस के विरुद्ध किया है इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध  
 २४ तू ने किया है । अपने कर्मचारियों के द्वारा तू ने प्रभु की  
 निन्दा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की  
 चांटियों पर बरन लवानान के बीच तक चढ़ आया हूँ सो  
 मैं उस के ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनौ-

वरी को काट डालूंगा और उस के दूर दूर के ऊंचे  
 ऊंचे स्थानों में और उस के बन में की फलदाई बारियों  
 में घुसूंगा । मैं ने तो खुदवा कर पानी पिया और मिस्र २५  
 की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालगा । क्या तू २६  
 ने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैं ने यही ठहराया  
 और अगले दिनों से इस की तैयारी की थी सो अब  
 मैं ने यह पूरा भी किया है कि तू गडवाले नगरों को  
 खंडहर ही खंडहर कर दे । इसी कारण उन में के रहने- २७  
 हारों का बल घट गया वे विस्मित और लज्जित हुए  
 वे मैदान के छूंटे छूंटे पड़ों और हरी घास और छूत पर  
 का घास और ऐसे अनाज के समान हागये जो बढ़ने से  
 राहले ही खस जाता है । मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच २८  
 करना और लोट आना जानता हूँ और यह भी कि तू मुझ  
 पर अपना काध भड़काता है । इस कारण कि तू मुझ पर २९  
 अना काध भड़काता और अभिमान को गतों मेरे कानों  
 में पड़ी है तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में  
 अना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग  
 से तुम्हें लौटा दूंगा । और तेरे लिये यह चिन्ह होगा कि इस ३०  
 बरस तो तुम उसे खाओगे जो आर से आप उगे और  
 दूसर बरस उस से जो उत्पन्न हो सो खाओगे और तीसरे  
 बरस बीज बोने और उसे लवने पाओगे दाख की  
 बारियां लगाने और उन का फल खाने पाओगे । और ३१  
 यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और  
 फलगे भी । क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और ३२  
 सियोन पवत से भागे हुए लोग निकलेगे सेनाओं का  
 यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करगा । सो ३३  
 यहोवा अशूर के राजा के विषय में यों कहता है कि वह  
 इस नगर में प्रवेश करने बरन इस पर एक तीर भी मारने  
 न पाएगा और न वह ढाल लेकर इस के साम्हने आने  
 वा इस के विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा । जिस मार्ग से ३४  
 वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर  
 में प्रवेश न करने पाएगा यहोवा की यही वाणी है ।  
 और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के ३५  
 निमित्त इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा ॥

सो यहोवा के दूत ने निकल कर अशूरियों की छावनी ३६  
 में एक लाख पचासी हजार पुरुष को मारा और भोर को  
 जब लोग सबेरे उठे तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी  
 है । सो अशूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर ३७  
 नौनवे में रहने लगा । वहां वह अपने देवता निशोर के ३८

(१) मूल में सब देशों और उन को भूमि को ।

(२) मूल में अपनी आंख ऊपर की ओर उठाई ।

(३) मूल में खेत । (४) मूल में नीचे की ओर जड़ । (५) मूल में ऊपर को ओर फलेंगे । (६) मूल में सेनाओं के यहोवा की जलन यह करेगी ।

मन्दिर में इरादवत् कर रहा था कि उस के पुत्र अद्रम्बे-लेक और शरेसेर ने उस को तलवार से मारा और अरा-रात देश में भाग गये और उसी का पुत्र एरहहोन उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥

### ३८. उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा गेगी हुआ कि मरा चाहता था और

- आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उस के पास जाकर कहा यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो सो दे क्योंकि तू न बचेगा मर जायगा । तब हिज-किय्याह ने भीत की आरंभ फेर यहोवा से प्रार्थना करके
- २ कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर आलता आया हूँ जो तुझे अच्छा लगता है सोई मैं करता
- ४ आया हूँ तब हिजकिय्याह बिलक बिलक रोया । तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा कि, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैं ने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं सुन मैं तेरी आयु पन्द्रह बरस और बढ़ा दूंगा । और अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी
- ७ और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा । और यहोवा जो अपने इस वचन को पूरा करेगा इस बात का तेरे लिये यहोवा की ओर से यह चिन्ह होगा कि, मैं धूरबड़ी की छाया को जो आदाज की धूरबड़ी में ढल गई है दस अंश पीऊ की ओर लौटा दूंगा सो छाया दस अंश जो वह ढल चुकी थी लौट गई ॥
- ९ यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने जो खोल उस समय लिखा जब वह गेगी होकर चंगा हो गया था सो यह है ॥
- १० मैं ने कहा था कि अपनी आयु के बीचों बीच अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा ॥ क्योंकि मेरी शेष आयु हूँ ली गई है ॥
- ११ मैं ने कहा था मैं याह को फिर न देखूंगा जीते जी मैं याह को न देखने पाऊंगा
- मैं परलोकवासियों का साथी होकर मनुष्यों को फिर न देखूंगा ॥
- १२ मेरा घर चरबारे के तंबू की नाई उठा लिया गया मैं ने बुननेहारे की नाई अपने जीवन को लपेट दिया वह मुझे ताने से काट लेगा एक दिन में तू मेरा अन्त कर डालेगा ॥
- १३ मैं मेरा लो अपने मन को शान्ति करता रहा

- वह सिंह की नाई मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है एक ही दिन में तू मेरा अन्त कर डालेगा ॥
- मैं सुपाबेने वा सारस की नाई व्युं करता १४ और पियडुक की नाई विलाप करता था मेरी आंखें ऊपर देखते देखते रह गईं
- हे यहोवा मुझ पर अन्धेरे हो रहा है तू मेरा जामिन हो ॥
- मैं क्या कहूँ उस ने मुझ से कहा और क्रिया भी है
- मैं जीवन भर जीव की कड़ुआहट के साथ दीनता से चलता रहूंगा ॥
- हे प्रभु इन्हीं बातों से लोग जीते हैं १६ और इन सभों से मेरे आत्मा का जीवन होता है
- सो तू मुझे चंगा कर के जिलाएगा ॥
- देख शान्ति ही के लिये मुझे बड़ी कड़ुआहट मिली १७ और तू ने स्नेह करके मुझे विनाश के गड़हे से निकाला है
- क्योंकि तू ने मेरे सब पापों को अपनी पीठ के पीछे कर दिया था ॥
- अधोलोक तो तेरा धन्यवाद नहीं करता न मृत्यु १८ तेरी स्तुति करती है
- जो कबर में पड़े हैं सो तेरी सच्चाई का आशा नहीं रखते ॥
- जो जीता है सोई तेरा धन्यवाद करता है जैसा १९ मैं आज कर रहा हूँ ।
- पिता पुत्रों को तेरी सच्चाई जताता है ॥
- यहोवा मेरा उद्धार करने को तैयार हुआ २० तो हम जीवन भर यहोवा के भवन में तारवाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे ॥
- यशायाह ने तो कहा था अजीरों की एक पीढ़ी २१ लेकर हिजकिय्याह के दुष्ट फोड़े पर बांधी जाए तब वह बचेगा । और हिजकिय्याह ने पूछा था कि इस का २२ क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा ॥
- ### ३६. उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बाबेल का राजा था उस ने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो

(१) मूल में तेरे साम्हने । (२) मूल में मीन में ।  
(३) वा मेरी आयु । (४) मूल में दिन से रात लों ।

(५) मूल में फेंक । (६) मूल में जीवता जीवता ।  
(७) मूल में मेरे ।

- जाने की चर्चा सुन कर उस के पास पत्नी और भेंट भेजी ।  
 २ इन से हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर उन को अपने अन्नमाल पदार्थों का भण्डार और चाँदी और सेना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का सारा घर और अपने भण्डारों में जो जो वस्तुएं थीं सो सब दिखाई हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उस ने उन्हें न दिखाई हो ।  
 ३ तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा वे मनुष्य क्या कह गये और कहाँ से तेरे पास आये वे हिजकिय्याह ने कहा वे तो दूर देश से अर्थात् बाबेल से मेरे पास आये थे । फिर उस ने पूछा तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है हिजकिय्याह ने कहा जो कुछ मेरे भवन में है सो सब उन्होंने देखा मेरे भण्डारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं ने उन्हें न दिखाई हो । यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले । ऐसे दिन आनेवाले हैं जिन में जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन लों तेरे भण्डारों में है सो सब बाबेल को उठ जाएगा यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी । और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हों उन में से भी कितनों को वे बन्धुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बन कर बाबेल के राजभवन में रहेंगे । हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा यहोवा का वचन जो तू ने कहा है सो भला ही है फिर उस ने कहा मेरे दिनों में तो शान्ति और सच्चाई बनी रहेंगी ॥

### ४०. तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है

- कि मेरी प्रजा को शान्ति  
 २ दो शान्ति । यरूशलेम से शान्ति की बातें कहो और उस से पुकारकर कहो कि तेरी काठन सेवा पूरी हुई है तेरे अधर्म का दण्ड अंगीकार किया गया है और यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दण्ड पा चुका है ॥  
 ३ किसी का पुकार सुनाई देती है कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो हमारे परमेश्वर के लिये अराबा में एक राजमार्ग खोद करो । हर एक तराई भरी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए जो टेढ़ा है सो सीधा और जो ऊँच नीच है सो मैदान किया जाए ।  
 ५ तब यहोवा का तेज प्रगट हो जाएगा और सब प्राणी उस को एक संग देखेंगे क्योंकि यहोवा ने आप ऐसा कहा है ॥  
 ६ बोलनेहारों का वचन है कि प्रचार कर और

किसी ने कहा मैं क्या प्रचार करूँ सब प्राणी पास हैं उन की सारी शोभा मैदान के फूल के समान है । पास ७  
 खूब गई फूल मुर्झा गया है क्योंकि यहोवा की साँस उस पर चली निःसन्देह प्रजा पास है । पास तो खूब जाती ८  
 और फूल मुर्झा जाता है पर हमारे परमेश्वर का वचन सदा लों अटल रहेगा ॥

हे पियेयान को शुभ समाचार सुनानेहारों उंचे ९  
 पहाड़ पर चढ़ जा हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने-  
 हारों बहुत उंचे शब्द से सुना उंचे शब्द से सुना मत  
 डर यहूदा के नगरों से कह कि अपने परमेश्वर को देखो ।  
 देखो प्रभु यहोवा सामथ दिखाता हुआ आता है और १०  
 वह अपने मुजबल से प्रभुता कर लेगा देखो जो मञ्जी  
 देने की है सो उस के पास और जो बदला देने का है  
 सो उस के हाथ में है । वह चरबाहे की नाई अपने ११  
 भुण्ड को चराएगा वह मेड़ों के बच्चों को अंकवार में  
 लिये चलेगा और दूध पिलानेहारियों को धीरे धीरे  
 ले चलेगा ॥

किस ने महासागर को अपने बुल्लू से मापा १२  
 और किस के विश्व से आकाश का परिमाण हुआ और  
 किस ने पृथिवी की मिट्टी को नखे में समवा लिया और  
 पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला  
 है । फिर किस ने यहोवा के आत्मा का परिमाण किया १३  
 वा उस का मन्त्री होकर उस को शान्तिलाया है ।  
 किस ने उस को सम्मति दी और समझाकर न्याय का १४  
 पथ बता दिया और शान सिलाकर बुद्धि का मार्ग  
 जता दिया । देखो जातियाँ तो डाल पर की बून्द वा १५  
 पलकों पर की धूलि के तुल्य ठहरीं देखो - हे हीरों को  
 धूलि के किनकों सरीखे उठाता है । और लवानोन १६  
 ईधन के लिये बोड़ा होगा और उस में के जीव जन्तु  
 होमबलि के लिये बड़े ठहरेंगे । सारी जातियाँ उस के १७  
 साम्हने कुञ्च हैं ही नहीं वे उस के लेखे लेश और  
 सुनमान ही ठहरीं । सो तुम ईश्वर को किस के समान १८  
 बताओगे और उस को किस की उपमा दोगे ।  
 कारीगर मूरत ढालता है और सेनार उस को सोने से १९  
 मढ़ता और उस के लिये चान्दी की सांकलें ढालकर  
 बनाता है । जो कंगाल इतना अर्थ नहीं कर २०  
 सकता वह ऐसा वृद्ध सुन लेता है जो सड़ने का न हो  
 और निपुण कारीगर हूँदकर मूरत खुदगता और उसे  
 ऐसा स्थिर कराता है कि वह न डिग सके । क्या तुम २१  
 नहीं जानते क्या तुम नहीं सुनते क्या तुम को प्राचीन

(१) मूल में सुनानेहारी ।

(२) मूल में उस की भुजा उस के लिये प्रभुता करेगी ।

काल से बताया नहीं गया क्या तुम ने पृथिवी की नेब  
 २२ पड़ने का विचार नहीं किया । जो पृथिवी के चारों  
 ओर के आकाशमण्डल पर विराजमान है और पृथिवी के  
 रहनेहारे टिड्डी से हैं जो आकाश को मलमल की नाईं  
 फैलाना और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिये तम्बू  
 २५ ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर  
 देता है वही पृथिवी के अधिकारियों की सूने के समान  
 २६ करता है । बगन वे लगाये न गये वे बोये न गये उन के  
 ठठ ने भूमि में जड़ न रकड़ी कि उस ने उन पर पवन  
 बहाई और वे सूख गये और आंधी उन्हें भूसे की नाईं  
 २५ ले गई । सो तुम मुझ को किस के समान बताओगे कि  
 मैं उस के तुल्य ठहरूं पवित्र का यही बचन है ।  
 २६ अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो कि किस ने इन को  
 सिरजा कौन इन के गण्य को गिन गिनकर निकालता  
 वह उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है वह ऐसा  
 बड़ा सामर्थी और अत्यन्त बली है कि उन में से कोई  
 धिन आये नहीं रहता ॥

२७ हे याकूब तू क्यों कहता है और हे इस्राएल तू क्यों  
 कहता है कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है मेरा  
 परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिन्ता नहीं करता ?  
 २८ क्या तुम नहीं जानते क्या तुम ने नहीं सुना कि यहोवा  
 जो सनातन परमेश्वर और पृथिवी भर का सिंजनहार  
 है सो न थकता और न अभित होता है और उस की बुद्धि  
 २९ अगम है । वह थके हुए को बल देता और शक्तिर्दान  
 ३० को बहुत सामर्थ्य देता है । तरुण तो थकते और अभित  
 हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते तो  
 ३१ हैं । पर जो यहोवा की बट जोहते हैं सो नया बल प्राप्त  
 करते आएंगे वे उकावों की नाईं उड़ेंगे वे दौड़ते दौड़ते  
 अभिस्त न होंगे और चलते चलते थक न जाएंगे ॥

४९. हे द्वीगे मेरे साम्हने चुप रहेओ और  
 देश देश के लोग नया बल प्राप्त

कर वे समीप आकर बोलें हम दोनों आपस में न्याय  
 २ चुकाने के लिये एक दूसरे के समीप आए । किस ने  
 पूर्व दिशा से एक की उभागा है जिस को वह धर्म के  
 साथ अपने पांव के पास बुलाता है वह उस के बश में  
 जातियों को कर देता और उस को राजाओं पर अधिकारी  
 ठहराता है वह उन्हें उस की तलवार को धूल के समान  
 और उस के धनुष को उड़ाये हुए भूसे के समान कर देता  
 ३ है । वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी

(१) मूल में मेरा न्याय मेरे परमेश्वर के पास होकर निकल गया ।

(२) मूल में चढ़ेंगे ।

न चला था बिना रोक टोक आगे बढ़ता है । किस ने यह  
 काम किया है उस ने जो आदि से पीढ़ी को लगातार  
 बुलाता आया है अर्थात् मैं यहोवा जो सब से पहला हूं  
 और अन्त के समय रहूंगा मैं वही हूं । द्वीप देलक डरते  
 ५ हैं पृथिवी के दूर दूर देश कांप उठते और निकट आगये  
 हैं । वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उन में से  
 ६ एक एक अपने भाई से कहता है कि हियाब बांध । और  
 ७ पढ़ई सेनाएं को और हथौड़े से बराबर करनेहारा निहाई  
 पर मानेहारे को यह कहकर हियाब बांध रहा है कि  
 मड़न तो अच्छी है सो वह कोल ठाक ठाक कर उस को  
 ऐसा दृढ़ करता है कि नहीं डिग सकती ॥

हे मेरे दास इस्राएल हे मेरे चुने हुए याकूब  
 हे मेरे प्रेमी इब्राहीम के बश, तू जिसे मैं ने पृथिवी के  
 ८ दूर दूर देशों से लेकर पहुंचाया और पृथिवी की छोर से  
 बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है मैं ने तुम्हें चुना  
 है और नहीं तजा, सो मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं  
 ९ इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं मैं  
 तुम्हें दृढ़ करता और तेरी सहायता करता और अपने  
 धर्ममय दहिने हाथ से तुम्हें सम्हालता रहूंगा ।  
 देख जो तुम्ह से क्रोधित हैं वे सब लजित होंगे और  
 १० उन के मुंह काले हो जाएंगे जो तुम्ह से भगड़ते हैं  
 सो नाश होकर विलाय जाएंगे । जो तुम्ह से लड़ते  
 ११ हैं उन्हें तू दृढ़न पर भी न पाएगा जो तुम्ह से युद्ध करते  
 हैं सो नाश होकर विलाय ही जाएंगे । और मैं तेरा परमे-  
 १२ श्वर यहोवा तेरा दहिना हाथ पकड़े हूं मैं ही तुम्ह से  
 कहता हूं कि मत डर क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा ।  
 हे कीड़े सराखे याकूब हे इस्राएल के मनुष्यों मत डरो  
 १३ क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरी सहायता  
 करूंगा तेरा छुड़ानेहारा इस्राएल का पवित्र है । सुन मैं  
 १४ ने तुम्हें छुरीवाली दांवने की एक नाईं और चौखी कल  
 ठहराया है सो तू पहाड़ों को दांय दांयकर सूख धूलि  
 कर देगा और पहाड़ियों को भूसे के समान कर देगा ।  
 तू तो उन को ओभाएगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी  
 १५ और आंधी उन्हें तित्तर बित्तर कर देगी और तू यहोवा  
 के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण  
 बड़ाई मारेगा । दीन और दारद्र लोग जल दूढ़ने पर भी  
 १६ नहीं गते और उन का ताप प्यास के मार्ग सूख गया है  
 पर मैं यहोवा उन की धिनती सुनूंगा मैं इस्राएल का  
 परमेश्वर उन को त्याग न दूंगा । मैं मुण्डे टीलों से भी  
 १७ नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा मैं जंगल  
 के ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा ।

(३) मूल में चढ़ेंगे ।

- १९ मैं जंगल में देवदार और बबूर और मेंहदी और जलपाई उगाऊँगा<sup>१</sup> मैं अराबा में सनौवर तिहार वृक्ष और सीधा
- २० सनौवर इकट्ठे लगाऊँगा, जिस से लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्त्राएल के पवित्र का सिरजा हुआ है ।।
- २१ यहोवा कहता है कि अपना मुकद्दमा लड़ो याकूब का राजा कहता है कि अपने हठ प्रमाण दे । वे उन्हें देखकर हम को बताएं कि होनहार में क्या होगा पूर्वकाल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ जिस से हम उन्हें सोचकर जान सकें कि आगे को उन का क्या फल होगा वा होनेहारी घटनाएं हम को सुना दो । आगे को जो कुछ घटेगा सो बताओ तब हम जानेंगे कि तुम ईश्वर हो वा मंगल वा अमङ्गल कुछ तो करो कि हम देखकर एक संग चकित हो जाएं । देखो तुम कुछ नहीं हो और तुम से कुछ नहीं बनता जो कोई तुम को चाहता सो भिनौना ही है ।।
- २५ मैं ने एक को उत्तर दिशा से उभारा वह आ भी गया है वह पूरब दिशा से भी मेरा नाम लेता है जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है वैसा ही वह हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा<sup>२</sup> । किस ने इस बात को पहिले से बताया था जिस से हम जान सकते किस ने पूर्वकाल से यह प्रगट किया जिस से हम कह सकते कि वह धर्मी है कोई भी बतानेहारा नहीं कोई भी सुनानेहारा नहीं तुम्हारी बातों का कोई भी सुननेहारा नहीं है । पहिले मैं ने सिध्दान्त से कहा कि देख उन्हें देख और मैं ने यरूशलेम के पास शुभ समाचार देनेहारे को भेजा है । मैं ने देखने पर भी किसी को न पाया उन में से कोई मन्त्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके ।
- २९ सुनो उन सभों के काम अनर्थ और तुच्छ हैं और उन की ढली हुई मूर्तियां वायु और गड़बड़ ही हैं ।।

**४२. मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले**

हूँ मेरे चुने हुए को देखो जिस से

मेरा जी प्रसन्न है मैं ने उस में अपना आत्मा समवाया है सो वह अन्यजातियों के लिये न्याय को प्रगट करेगा ।

२ वह न चिन्ताएगा न ऊंचे शब्द से बोलैगा न सड़क में

३ अपनी वाणी सुनाएगा । वह कुचले हुए नरकट को न

तोड़ेगा न धुन्धली बरती हुई बत्ती को बुझाएगा वह

४ सच्चाई से न्याय चुकाएगा । वह आप तब लों न धुंधला-

एगा न कुचला जाएगा जब लों वह न्याय को पृथिवी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उस की व्यवस्था की बात जोहेंगे । ईश्वर जो आकाश का सिरजनेहारा और ताननेहारा और उरज समेत पृथिवी का विस्तारनेहारा और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने-हारे को आत्मा देनेहारा यहोवा है सो ये कहता है कि, मुझ यहोवा ने तुम्ह को धर्म की रीति से बुला लिया और मैं तेरा हाथ पकड़ कर तेरी सत्ता करूँगा मैं तुम्हें प्रजा के लिये वाचा और जातियों के लिये प्रकाश ठहराऊँगा, कि तु अन्धों का आँखें खोलो और बंधुओं को बन्दीगृह से और जो अधिभारे में बैठे हैं उन को कालकेदारी से निकाले । मैं यहोवा हूँ मेरा नाम यही है और मैं अपनी माहमा दूसरे को न दूँगा और जो स्तुति मेरे योग्य है सो खुदी हुई मूरतों को मिलने न दूँगा । सुनो पहिली बातें तो ही चुकी हैं और मैं नई बातें बताता हूँ उन के होने से पहिले मैं उन्हें तुम को सुनाता हूँ ।।

हे समुद्र पर चलनेहारो<sup>३</sup> हे समुद्र के सब रहने-

हारो हे द्वीपों अपने रहनेहारों समेत तुम सब यहोवा के

लिये नया गीत गाओ और पृथिवी की छोर से उस की

स्तुति करो । जङ्गल और उस में की बस्तियां और केदार

के बसे हुए गाँव जयजयकार करें सेला के रहनेहारे जय-

जयकार करें । वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से

गाएं । वे यहोवा की माहमा करें और द्वीपों में उस का

गुणानुवाद करें । यहोवा बार की नाई पयान करेगा और

योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा वह ऊंचे शब्द

से ललाकारेगा और अपने शत्रुओं पर वीरता दिखाएगा ।।

बहुत काल से तो मैं चुप रहा हूँ और मौन गहे

हूँ और अपने को रोकता आया पर अब जननेहारी की

नाई चिन्ताऊँगा मैं हाँफ हाँफकर सांस भरूँगा । मैं

पहाड़ों और पहाड़ियों को सुखा डालूँगा और उन की

सब हरियाली को झुलसा दूँगा और नदियों को द्वीप कर

दूँगा और तालों को सुखा डालूँगा । मैं अंधों को एक

मार्ग से ले चलाऊँगा जिन्हें वे न जानते हों मैं उन को उन

पथों से चलाऊँगा जिन्हें वे न जानते हों मैं उन के आगे

अधिभारे को उजियाला करूँगा और टेढ़े मार्ग को सीधा

करूँगा मैं ऐसे ऐसे काम करके उन को त्याग न दूँगा । जो

लोग खुदी हुई मूरतों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई

मूरतों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो उन को

पीड़े हटना और अत्यन्त लजाना पड़ेगा । हे बहिरो सुनो

हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको । मेरे दास

को छोड़ कौन अंधा है और मेरे भेजे हुए दूत सरीखा

(१) मूल में दूँगा ।

(२) मूल में को आएगा ।

(३) मूल में उतरनेहारो ।

- कौन बहिरा है मेरे मित्र के समान कौन अंधा है और  
 २० यहोवा के दास सरीखा अंधा कौन है । तू ने बहुत सी बातें देखी तो हैं पर उन की चिन्ता नहीं करता उस के कान खुले तो रहते हैं पर वह नहीं सुनता ॥  
 २१ यहोवा को अपने ही धर्म के निमित्त यह भावा था  
 २२ कि वह व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे । पर ये लोग लुट-पट गये हैं ये सब के सब गड़हियों में फंसे हुए और कालकोठारियों में बन्द किये हुए हैं ये पकड़े गये और कोई इन को नहीं छुड़ाता इन का धन छिन गया है और कोई उसे फेर देने की आशा नहीं देता । तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा कौन ध्यान धरके होनहार के  
 २४ लिये सुनेगा । किस ने याकूब को लुटाया और इस्राएल को लुटपाट करनेहारों के वश कर दिया क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिस के विरुद्ध हम ने पाप किया और जिस के मार्गों पर उन्होंने चलने न चाहा और जिस की  
 २५ व्यवस्था को उन्होंने न माना । इस कारण उस ने उस के ऊपर अपने कोर की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया और यद्यपि आग उस के चारों ओर लग गई तौभी वह न जानता था बरन वह जल भी गया तौभी उस ने कुछ मन नहीं लगाया ॥

४३. हे याकूब तेरा सिरजनेहारा यहोवा और हे इस्राएल तेरा रचनेहारा

- अब यों कहता है कि तू मत डर क्योंकि मैं ने तुझ को छुड़ा लिया मैं ने तुझ को नाम लेकर बुलाया है तू तो मेरा ही है । जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब तू उन में न डूबेगा जब तू आग में होकर जाए तब तू न जलेगा और न लौ से तुझे आंच लगेगी । क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ मैं इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धारकर्ता हूँ मैं इस को तेरी छुड़ीती में देता और ४ कृष और सबा को तेरी सन्ती देता हूँ । तू जो मेरे लेखे अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा और मैं जो तुझ से प्रेम रखता हूँ इस कारण मैं तेरी सन्ता मनुष्यों को और तेरे ५ प्राण के पलटे में राज्य राज्य के लोगों को दूंगा । मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे बंश को पूरव से ले ६ आऊंगा और पक्कम से भी इकट्ठा करूंगा । मैं उत्तर से कहूंगा कि दे दे और दक्षिन से कि रोक मत रख मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथिवी की छोर से ७ ले आ, अर्थात् हर एक को जो मेरा कहलाता है जिस को मैं ने अपनी महिमा के लिये सिरजा जिस को मैं ने

(१) मूल में उल्टेली ।

रचा और बनाया है । आंख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बाहरों को निकाल ले आ । जाति जाति के लोग इकट्ठे लिये जाएं और राज्य राज्य के लोग जुट जाएं उन में से कौन यह बात बता सकता वा भीती हुई बातें हम को सुना सकता है वे अपने साक्षी ले जाएं जिस से वे सबे उदरें वा वे सुन लें और कहें हां सत्य वचन है । यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी और मेरे दास हो जिस को मैं ने इसलिये चुना है कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वहीं हूँ मुझ से पहिले कोई ईश्वर न बना और न मेरे पीछे होगा । मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उदारकर्ता नहीं । मैं ही ने समाचार दिया और उदार कर दिया और बर्षान भी किया और तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था सो यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मैं ही ईश्वर हूँ । और अब से आगे को भी मैं वहीं रहूंगा और मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा जब मैं काम करने चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा ॥

फिर यहोवा जो तुम्हारा छुड़ानेहारा और इस्राएल का पवित्र है यों कहता है कि तुम्हारे निमित्त मैं ने बाबेल को भेजा है और उस के सब रहनेहारे कस-दियों को उन्हीं जहाजों पर चढ़ाकर जिन के विषय वे बड़ा बोल बोलते हैं भगवा दूंगा । मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र हूँ मैं इस्राएल का सिरजनेहारा तुम्हारा राजा हूँ । यहोवा तो समुद्र में मार्ग और प्रचण्ड धारा में रथ बनाता है, और रथ और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है और वे तो एक संग वहीं रह जाते और फिर नहीं उठ सकते वे बुत गये वे सन की बची की नाईं बुझ गये हैं । सो वह यों कहता है कि अब भीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और न प्राचीन काल की घटनाओं पर मन लगाओ । देखो मैं एक नई बात करता हूँ सो अभी प्रगट होगी और निश्चय तुम उस को जान लोगे अर्थात् मैं जङ्गल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा । गीदड़ और शूतुमुर्ग आदि बनैले जन्तु मेरी महिमा करेंगे क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिये जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा । इस प्रजा को मैं ने अपने लिये बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें । हे याकूब तू ने मुझ से प्रार्थना नहीं की हे इस्राएल तू मुझ से उकताया

(२) मूल में करे । (३) मूल में ऊंचे शब्द से बोलते हैं ।

(४) मूल में भगोवे करके उतारूंगा ।

- २३ है। तू मेरे लिये होमबलि करने को मेम्ने नहीं लाया और न मेलबलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है देख मैं ने अन्नबलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझ से नहीं कराई और न तुझ से धूप दिलाकर तुझे थका दिया
- २४ है। तू मेरे लिये सुगन्धित नरकट रूपए से मोल नहीं लाया और न मेलबलियों की चर्बों से मुझे तृप्त किया पर तू ने पाप करके मुझ से काठिन सेवा कराई और
- २५ अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और
- २६ तंत्र पापों को स्मरण न करूँगा। मुझे स्मरण करो। हम आस में न्याय चुकाए तू ही ऐसा वर्णन कर जिस से
- २७ तू निदोष ठहरें। तेरा मूलपुरुष पापी हुआ था और जो जो मेरे तुम्हारे बिचबई हुए सा मुझ से बलवा करते
- २८ चले आये हैं। इस कारण मैं ने पवित्रस्थान के हाकिमों को अपावन्न ठहराया और याकूब का सत्यानाश और
- १ इस्राएल को निन्दित होने दिया है। अब हे मेरे दास याकूब हे मेरे चुने हुए इस्राएल सुन ले।
- २ ४४. तेरा कर्ता यहेवा जो तुझ गभ ही में से बनाता आया है और वह तेरी सहायता करेगा सो यों कहता है कि हे मेरे दास याकूब हे मेरे चुने हुए यशरून १
- ३ मत डर। क्योंकि मैं प्यास पर जल और सूखी भूमि पर धाराएँ बहाऊँगा मैं तेरे वंश पर अपना आत्मा और तेरी
- ४ सन्तान पर अपनी आशिष उँडेलूँगा। सा व उन मजनुआ की नाई बढेंगे जो धाराओं के पास घास के मध्य में होते
- ५ हैं। कोई ताँ कहेगा कि मैं यहेवा का हूँ और कोई अपना नाम याकूब रखेगा और कोई इस के विषय दस्तखत करेगा कि मैं यहेवा का हूँ और अपनी पदवी इस्राएला बताएगा ॥
- ६ यहेवा जो इस्राएल का राजा है अर्थात् सेनाओं का यहेवा जो उस का छुड़ानेहारा है सा यों कहता है कि मैं सब से पहिला हूँ और अन्त लो भी मैं ही रहूँगा
- ७ और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जब से मैं ने प्राचानकाल के मनुष्यों को ठहराया तब से कौन हुआ जो मेरी नाई उस का प्रचार करे वा बताये वा मेरे लिये रचे अथवा होनहार बातें जो घटा चाहती हैं
- ८ उन्हें प्रगट करे। तुम मत थरथराओ और भयमान न हो क्या मैं ये बातें उस समय से ले तुम्हें सुना सुनाकर बताता नहीं आया तुम तो मेरे साक्षी हो क्या मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है नहीं मुझे छोड़ कोई चटान नहीं
- ९ मैं तो किसी को नहीं जानता। जो मूरत खोदकर बनाते

हैं सो सब के सब व्यर्थ हैं और उन की चाही हुई वस्तुओं से कुछ लाभ न होगा और उन के जो साक्षी हैं सो आप न तो कुछ देखते न कुछ जानते हैं इसलिये उन को लाजित होना पड़ेगा। किस ने देवता वा १० निष्फल मूरत ढाली है। देख उस के सब संगियों को तो ११ लजाना पड़ेगा और कारीगर जो हैं सो मनुष्य ही हैं वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों वे थरथरा उठेंगे और उन सभों के मुँह काले होंगे। लोहार एक बसुला १२ लेकर मूरत को अंगारों में बनाता और हथौड़े से गढ़ गढ़ कर तैयार करता है वह उस को भुजबल से बनाता है फिर वह भूला हो जाता है और उस का बल घटता है वह पानी न पीकर थक जाता है। बड़ई सूत लगाकर १३ टाकी से रेखा करता है और रन्दनी से काम करता और परकार से रेखा खींचता है और उस का आकार और सुन्दरता मनुष्य की सी करता है कि लोग उसे घर में रखें। कोई देवदार को काटता वा बन के १४ वृक्षों में से जाति जाति के बाजवृक्ष चुनकर सेवता है वा वह एक तृस का वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता १५ है वह उस में से कुछ लेकर तापता है फिर उस को जलाकर रोटी बनाता है फिर वह देवता भी बनाकर उस को दण्डवत् करता है वह मूरत खुदवाकर उस के साम्हने प्रणाम करता है। उस का एक भाग तो वह १६ आग में जलाता और दूसर भाग स मांस पकाकर खाता है वह मांस भूनकर तृप्त होता फिर तापकर कहता है वाद में अच्छा तागा हूँ मुझे आंच जान पड़ी है। और उस के बच हुए भाग को लेकर वह एक १७ देवता अर्थात् एक मूरत खोदकर बनवाता है तब वह उस के साम्हने प्रणाम और दण्डवत् करता और उस से प्रार्थना करके कहता है मुझे बचा लो क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते और न कुछ समझ १८ रखते हैं क्योंकि उन की आखें ऐसी मून्दा १ गई हैं कि वे देख नहीं सकते और उन का हृदय ऐसा हुआ है कि वे बूझ नहीं सकते। और कोई इस बात की और १९ मन नहीं लगाता और न किसी को इतना शान वा समझ रहता है कि कह सके कि उस का एक भाग ता मैं ने जला दिया और उस के कायला पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है फिर क्या मैं उस के बचे हुए भाग को धनौनी वस्तु बनाऊँ क्या मैं काठ २० को प्रणाम करूँ। वह तो राख खाता है वह मुझे हुए २०



मन से भटकाया हुआ है और वह न तो अपने को बचा सकता न कह सकता है कि क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं है ॥

- २१ ह याकूब है इस्राएल इन बातों का स्मरण रख क्योंकि तू मेरा दास है मैं ने तुझे रचा है तू मेरा दास २२ है ह इस्राएल मैं तुझ को न बिसराऊंगा । मैं ने तेरे अपराधों को काली घटा क समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है मेरी आर फिर क्योंकि मैं ने तुझे छुड़ा लिया है ॥
- २३ हे आकाश ऊंचे स्वर से गा क्योंकि यहावा ने काम किया है हे पृथिवी के गहिर स्थानों जयजयकार करा हे पहाड़ों हे वन हे वन क सब वृक्षा गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ क्योंकि यहावा न याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल के द्वारा अपने को शोभायमान २४ दिखाएगा । यहावा जिस न तुझ छुड़ा लिया और तुझ गभ ही से बनाता आया है सो या कहता है कि मैं यहावा ही सब काम पूरा करनेहारा हू मैं ही अकेला आकाश का ताननहारा और पृथवा का अपना ही शक्ति से २५ विस्तारनेहारा हू । मैं झूठे लोग क कह हुए चन्धों का व्यर्थ कर देता और भावी कहनहारों का बावला कर देता हू और बुद्धिमाना का पीछे हटा देता और उन को २६ पायडताई का मुखता बनाता हू, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्त का सुफल करता हू मे यरूशलेम के विषय कहता हू कि वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों क विषय कि वे फिर बसाए जाएंगे और मे उन क खण्डहरों का सुधारूगा । २७ मैं गहिर जल से कहता हू कि तू सूख जा और मैं तेरा २८ नदियों का सुखाऊंगा । मैं कुसू क विषय म कहता हू कि वह मरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मरी सारा इच्छा पूरा करगा और यरूशलेम के विषय कहता हू कि वह बसाई जाएगी और मन्दर का नव डाली जाएगी ॥

### ४५. यहावा अपने अभिषिक्त कुसू के विषय

यों कहता है कि मैं ने उस के दाहिने हाथ को इसलिये थाम लिया है कि उस के साम्हन जातियों को दया दू और राजाओं की कमर दीली करू और फाटका को उस के साम्हने खाल दू २ और फाटक बन्द न किये जाएं । मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे नीचे को चौरस करूंगा मैं पीतल के किबाड़ों को तोड़ डालूंगा और लाइ क बेंड़ों को टुकड़े

टुकड़े कर दूंगा । मैं तुझ को अन्धकार में डिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गवा हुआ धन दूंगा इसलिये कि तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहावा हूँ और मैं ही तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ । अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैं ने नाम लेकर तुझे बुलाया है यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तोभी मैं ने तुझे पदवी दी है । मैं यहावा हूँ और दूसरा कोई नहीं मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं यद्यपि तू मुझ नहीं जानता तोभी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिस से उदयाचल से लेकर अस्ताचल लो लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं मैं यहावा हूँ दूसरा कोई नहीं है । मैं उजियाले का बनानेहारा और अन्वियारों का सिरजनहार हूँ मैं शान्ति का करनेहारा और विपत्ति का सिरजनहार हूँ मैं यहावा ही इन सबों का कर्ता हूँ । हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा और आकाशमण्डल से धर्म की वर्षा हो फिर पृथवा खुलकर उदार उत्पन्न कर और धर्म को उस के सग ही उगाए मुझ यहावा ही ने उस को सिरजा है ॥

हाथ उस पर जो अपने रचनेहारे से भगइता है वह तो मट्टी के ठाकरों में से एक ठाकरा ही है । क्या मट्टी कुम्हार से कहेगी कि तू यह क्या करता है क्या कारागर का बनाया हुआ कार्य्य उस क विषय कहेगा कि उस के हाथ नहीं हैं । हाथ उस पर जो अपने पता से कहे कि अब तू क्या जन्माता वा स्या से कहे कि तू क्या जनता है । यहावा जो इस्राएल का पावन और उस का बनानेहारा है सो यों कहता है क्या तुम आनेहारी बटनाए मुझ से पूछागे क्या मर पुत्रा और मेर कामों क विषय मुझे आशा दोगे । मैं ही न पृथवा को बनाया और उस के ऊपर मनुष्यों को सिरजा है मैं ने अपने ही हाथों से आकाश का तान दिया और उस क सारे गण का आशा दी है । मैं ही ने उस पुरुष को धर्म की रीति स उभारा है और मैं उस के सब मार्गों का सीधा करूंगा सो वही मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुआ को बिना दाम वा बदला लिये छुड़ा देगा सेनाआ के यहावा का यहाँ वचन है ॥

यहावा यो कहता है कि भिक्षियों के भ्रम की कमाई और कूशियों के व्यापार का लाभ तुझ को मिलेगा और सवाई लोग जो डील डोलवाले हैं सो तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हा जाएंगे वे तेरे पीछे पीछे चखेंगे बरन सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे

(२) मूल में धर्म बहे । (३) मूल में तेरा । (४) मूल में मुझे किस से पीछे उठी ।

साम्हने दयडवत् कर तुम्ह से बिनती करके कहेंगे कि निश्चय तेरे बीच ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं कोई और परमेश्वर नहीं ॥

- १५ ह इस्राएल के परमेश्वर हे उद्धारकर्ता निश्चय त  
 १६ ऐसा ईश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों  
 के गढ़नेहारे सब के सब लाजित और निरादर होंगे और  
 १७ उन के मुंह काले हो जाएंगे। पर इस्राएल का यहोवा  
 के द्वारा युग युग का उद्धार हो जाएगा तुम युग युग  
 बरन अनन्त काल लौ लाजित न होंगे न तुम्हारे मुंह  
 काले हो जाएंगे ॥
- १८ क्योंकि यहोवा जो आकाश का सिरजनहार है  
 सोई परमेश्वर है जिस ने पृथिवी को रचा और बनाया  
 उसी ने उस को स्थिर भी किया और सुनसान होने के  
 लिये नहीं। सरजा पर बसने के लिये उस रचा वही यो  
 कहता है कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है।  
 १९ मैं ने न किसी गुप्त स्थान में न अन्धकार के देश के  
 किसी स्थान में बातें कीं मैं ने याकूब के बंश से नहीं  
 कहा कि मुझे व्यर्थ हूँदे' मैं यहोवा धर्म की बात  
 २० कहता हूँ और ठीक बातें बताता आया हूँ। हे अन्यायियों  
 में के बचे हुए लोग इकट्ठे होकर आआ एक संग निकट  
 आआ जो अपनी काठ का खुदी हुई मूरत लिये फिरते  
 हैं और जिस देवता से उद्धार नहीं हो सकता उस से  
 २१ प्रार्थना करते हैं वे कुछ ज्ञान नहीं रखते। बताओ तो  
 और उन को लाआ व आपस में सम्मति करें कौन इस को  
 प्राचीनकाल से सुनाता आया और अगले दिनों से बताता  
 आया है क्या मैं यहोवा ही ऐसा करता नहीं आया और  
 मुझे छोड़ काई दूसरा परमेश्वर नहीं है मैं तो धर्मी और  
 उद्धारकर्ता ईश्वर हूँ और मुझे छोड़ दूसरा कोई नहीं है।  
 २२ हे पृथिवी के दूर दूर के देश के लागो तुम मेरी और फिर  
 कर उद्धार पाओ क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई  
 २३ नहीं है। मैं ने अपनी ही किरिया खाई और यह वचन  
 धर्म के अनुसार मेरे मुख से निकल चुका और न बद-  
 लेगा कि हर कोई मेरे ही साम्हने घुटने टेकगा हर एक  
 २४ के मुख से मेरी ही किरिया खाई जाएगी। लाग मेरे विषय  
 कहेंगे कि केवल यहोवा से धर्म और शक्ति मिलती है  
 लोग उस के पास आएंगे और जो उस से रुठे रहेंगे उन्हें  
 २५ लाजित होना पड़ेगा। तब इस्राएल के सारे वंश के  
 लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और बढ़ाई  
 मारेंगे ॥

४६. बेल देवता भुक्त गया नबो देवता निहुड़  
 गया उन की प्रतिमाएँ पशुओं

पर बरन बरैले पशुओं पर लदी हैं जिन वस्तुओं को तुम  
 लिये फिरते थे सो अब भारी बोझ ठहर गई वे यकित  
 पशु के लिये भार हुई हैं। वे निहुड़ गये वे एक संग भुक्त  
 गये वे भार को छुड़ा नहीं सके बरन आप भी बंधुआई  
 में चले गये हैं ॥

हे याकूब के घराने हे इस्राएल के घराने के सारे  
 बचे हुए लागो मेरा और कान धरकर सुना तुम का म  
 तुम्हारा उत्पत्ति ही से उठाये रहता और जन्म ही से  
 लिये फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे ला भी मैं वैसा  
 ही बना रहूँगा तुम्हारे बाल पकने के समय ला भी मैं  
 तुम्हें उठाय रहूँगा मैं ने तुम्हें बनाया है और तुम का  
 लिये फिरता रहूँगा, मैं तुम्हें उठाये रहूँगा और छुड़ाता भा  
 रहूँगा। तुम मुझे किस की उपमा दोगे और किस क  
 समान बताओ और किस से मेरा मिलान करोग कि  
 वह मेरे समान ठहरे। वे थैला से सोना उखलते वा  
 कांटे में चादी तोलते तब सोना का मजरा देकर उस से  
 देवता बनवाते हैं। फिर उस देवता का प्रणाम बरन दयड-  
 वत् भा करते हैं। वे उस का कन्धे पर उठाकर लिये  
 फिरत तब उसे उस के स्थान म रख देते हैं और वह  
 वहां लड़ा रहता है और अपन स्थान से हटता नहीं चाह  
 कोई उस की दाहाई दे तोभा वह न सुन सकेगा न  
 विवाच से उस का उद्धार कर सकेगा ॥

हे अराधया इस बात को स्मरण करके स्थिर  
 हो इस की ओर मन लगाओ। प्राचीनकाल का अगली  
 बातें स्मरण करा क्योंकि ईश्वर मैं हा हूँ दूसरा कोई नहीं  
 परमेश्वर मैं हा हूँ और मेरे तुल्य काई भा नहीं है। मैं  
 ता आद से अन्त की बात का और प्राचीनकाल से  
 उस बात को बताता आया हूँ जो अब लो नहीं  
 हुई में कहता हूँ कि मेरा युक्ति ठहरेंगी और मैं  
 अपनी सारी इच्छा का पूरा करता हूँ। मैं पूर्व से एक  
 मासाहारी पक्षा को अथात् दूर देश से अपनी युक्ति क  
 पूरा करनहार पुरुष को बुलाता हूँ मैं ने बात तो कहा  
 और उसे पूरी भा करूँगा मैं ने बात तो ठहराया है और  
 उसे सुफल भी करूँगा। हे कठोर मनवालो तुम जो  
 धर्महान हो' सा कान धरकर मेरी सुना। मैं अपनी  
 धार्मिकता प्रगट करने पर हूँ सो वह छिपी न  
 रहेगी और मेरे उद्धार करने में विलम्ब न लगेगा मैं

(१) मूल में सुनसान स्थान में हूँदे  
 (२) मूल में न लौटेगा ।

(३) मूल में तुम जो धर्म से दूर हो ।  
 ले आने । (५) मूल में दूर ।

(४) मूल में निकल

सिन्धुन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को शोभायमान कर दूंगा<sup>१</sup> ॥

४७. हे बाबेल की कुमारी बेटी उतरकर धूलि में बैठ जा हे कसदियों

की बेटी बिना सिंहासन भूमि पर बैठ जा क्योंकि तू फिर २ कोमल और सुकुमार न कहाएगी । चक्की लेकर आटा पीस अपना बुका उतार घाघरा उठा और उचारी टांगो ३ नदियों को पार कर । तू नंगी की जाएगी और तेरी नंगाई प्रगट होगी क्योंकि मैं पलटा लूंगा और किसी मनुष्य को न छोड़ूंगा<sup>२</sup> ॥

४ हमारा कुड़ानेहारा जो है उस का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है ॥

५ हे कसदियों की बेटी चुपचाप बैठी रह और अंधियारे में जा क्योंकि तू फिर राज्य राज्य की स्वामिन ६ न कहाएगी । मैं ने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया तब तू ने उस पर कुछ दया न की और बूढ़ों पर ७ अपना अत्यन्त भारी जूआ रख दिया । तू ने तो कहा कि मैं सदा स्वामिन बनी रहूंगी सो तू ने इन बातों पर मन न लगाया और न स्मरण किया कि उन का क्या फल होता है ॥

८ सो हे राग रंग में बन्नी हुई तू जो निबर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं मैं विधवा न हूँगी और न मेरे ९ लड़के बाले जाते रहेंगे सो तू अब यह बात सुन कि, ये दोनों बातें लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेगी ये तेरे बहुत से दोनो और तेरे अति भारी तन्त्र मन्त्रों के रहते १० सो तुझ पर अपने पूरे बल से पड़ेगी । तू ने तो अपनी दुष्टता पर भरोसा रक्खा है तू ने कहा है कि कोई मुझे नहीं देखता तेरी बुद्धि और ज्ञान जो है उसी ने तुझे बहकाया है सो तू ने मन में कहा है कि मैं ही हूँ और कोई ११ दूसरा नहीं । इस कारण तेरी ऐसी दुर्गति होगी कि तुझे सुरू न पड़ेगा कि किस मन्त्र करके उसे दूर करूँ और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित्त करके उसे निवारण न कर सकेगी और तेरे बिन जान अचानक तेरा १२ बिनाश होगा । तू अपने तन्त्र मन्त्र और बहुत से दोने करने जिन में तू बचपन से पारश्रम करती आई है खड़ी हो क्या जाने तू उन से लाभ उठा सक वा उन के बल

से औरों को भय दिखा सके । तू तो युक्ति करते करते १३ थक गई है सो अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों का ध्यान से देखते और नये नये चांद को देखकर होनहार बताते हैं सो खड़े होकर तुझे उन बातों से जो तुझ पर घटेंगी बचाएं । देख वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो १४ जाएंगे वे अपने ही प्राण ज्वाला से न बचा सकेंगे वह आग तो तापने के लिये अंगारा न होगी न ऐसी होगी जिस के साम्हने कोई बैठे । जिन बातों में तू परिश्रम १५ करती आई है सो तेरे लिये वैसी ही हो जाएंगी और जो तेरे बचपन से तेरे संग व्योपार करते आये हैं सो अपनी अपनी दिशा की ओर जाएंगे और तेरा कोई उद्धारकर्त्ता न होगा ॥

४८. हे याकूब के घराने यह बात सुन तुम जो इस्राएली कहावते और

यहूदा के वंश में उतरल हुए हो<sup>१</sup> जो यहोवा के नाम की किरिया तो खाते और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो पर सच्चाई और धर्म से नहीं करते । वे तो अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इस्राएल के परमेश्वर पर जिस का नाम सेनाओं का यहोवा है टेक लगाये रहते हैं । अगली बातों को तो मैं ने प्राचीनकाल से बताया और उन की चर्चा उठाकर सुनाई मैं ने अचानक उन्हें किया और वे हुई । मैं जो जानता था कि तू हठाला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है, इस कारण मैं ने अगली बातें प्राचीन ५ काल से तुझे बताई उन के घटने से पहिले ही मैं ने तुझे सुनाया ऐसा न हो कि तू कहने पाए कि यह मेरी मूरत का काम है और मेरी खुदी और ढली हुई मूर्तियों की आशा से हुआ । तू ने सुना है इस सब का घटना ६ देख क्या तुम उस का प्रचार न करोगे अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें जिन्हें तू न जानता था सुनाता हूँ । वे तो अभी सिरजी गई और इस से पहिले ७ न हुई थी तू ने आज से पाहले उन्हें न सुना था कहीं ऐसा न हो कि तू कहने पाए कि मैं तो इन्हें जानता था । निश्चय तू ने उन्हें न तो सुना न जाना और इस से ८ पाहले तेरा कान न खुला था क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करता है और उत्पास ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है । मैं अपने ही नाम के ९ निमित्त कोप करने में विलम्ब करूँगा और अपने यश के निमित्त अपने तर्ह रोक रक्खूँगा ऐसा न हो कि मैं तुझे नाश करूँ । देखो मैं ने तुझे सीधा तो सही पर चांदी की १०

(१) मूल में मैं सिन्धुन में उद्धार इस्राएल के लिये अपनी शोभा दूंगा ।

(२) मूल में मनुष्य से न मिलूंगा ।

(३) मूल में यहूदा के जल से निकले हो ।

- नाई नहीं मैं ने तुम्हें दुःख की भट्टी में अपनाया है ।  
 ११ अपने निमित्त अपने ही निमित्त मैं यह कहूँगा मेरा नाम  
 क्यों अपवित्र ठहरे और मैं अपनी महिमा दूसरे को न  
 दूँगा ॥  
 १२ हे याकूब हे मेरे बुलाये हुए इस्राएल मेरी ओर  
 कान धर कर सुन क्योंकि मैं ही हूँ मैं आदि से  
 १३ हूँ और अन्त लो<sup>२</sup> भी मैं ही रहूँगा । मेरे ही हाथ  
 से पृथिवी की नेब डाली गई और मेरे ही दहिने  
 हाथ से आकाश फैलाया गया फिर जब मैं  
 उन को बुलाता हूँ तब वे एक साथ खड़े हो जाते हैं ।  
 १४ तुम सब के सब इकट्ठे हाकर सुनो उन में से किस ने  
 कभी इन बातों को जताया है । जिस से यहोवा प्रेम  
 रखता है वही बाबेल पर उस की इच्छा पूरी करेगा और  
 १५ कसदियों पर उसी का भुजबल पड़ेगा । मैं ही ने बातें  
 की और मैं ने उस को बुलाया है मैं उस को ले आया  
 १६ और उस का काम सुफल होगा । मेरे निकट आकर इस  
 बात को सुनो आदि से लेकर मैं ने कोई बात गुप्त में नहीं  
 कही जब से यह हुई तब से मैं हूँ और अब प्रभु यहोवा  
 १७ और उस के आत्मा ने मुझे भेज दिया है<sup>३</sup> । यहोवा जो  
 तेरा छुड़ानेहारा और इस्राएल का पवित्र है सो यों कहता  
 है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लाभ के लिये शिक्षा  
 देता हूँ और जिस मार्ग से तुम्हें चलना है उसी से तुम्हें  
 १८ चलाता । भला होता कि तू ने मेरी आज्ञाओं को  
 ध्यान से सुना होता तो तेरी शान्ति नदी के और तेरा  
 १९ धर्म समुद्र की लहरों के समान होता । और तेरा वंश  
 बालू के किनकों सरीखा और तेरी निज सन्तान उस  
 के कणों के समान होती और उस का नाम मेरे साम्हने  
 से नाश न होता न मिट जाता ॥  
 २० बाबेल में से निकल जाओ कसदियों के बीच से  
 भाग जाओ जयजयकार करते हुए इस बात को प्रचार  
 करके सुनाओ पृथिवी की छोर लो भी इस की चर्चा फेलाओ  
 कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है ।  
 २१ और जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले चलता था तब वे  
 प्यासे न रहे उस ने उन के लिये पानी बहाया उस ने  
 २२ चटान को फाड़ा और पानी फूट निकला । दुष्टों के लिये  
 कुछ शान्ति नहीं यहोवा का यही वचन है ॥

४६. हे हीरो मेरी ओर कान लगाकर  
 सुनो और हे दूर दूर के राज्यों  
 के लोगों ध्यान धरकर मेरी सुनो क्योंकि यहोवा ने

मुझे गर्भ ही में रहते बुलाया जब मैं माता के पेट में  
 था तब भी उस ने मेरे नाम की चर्चा की ।  
 और उस ने मेरे बच्चों<sup>४</sup> को खोली तलवार के समान २  
 कर दिया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा  
 फिर मुझ को चमकीला तीर बनाकर अपने तर्कश में गुप्त  
 रखा, और मुझ से कहा कि तू मेरा दास इस्राएल ३  
 है तेरे द्वारा मैं अपने को शोभायमान दिखाऊँगा । तब ४  
 मैं ने कहा कि मैं ने तो अकारण परिभ्रम किया और  
 व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है तौभी यहोवा मेरा न्याय  
 चुकाएगा<sup>५</sup> और मेरे परिभ्रम का फल मेरे परमेश्वर के ५  
 हाथ में है । और अब यहोवा जिस ने मुझे जन्म ही से  
 इसलिये रचा कि मैं उस का दास होकर याकूब को  
 उस की ओर फेर ले आऊँ अर्थात् इस्राएल को उध के  
 पास इकट्ठा करूँ और यहोवा की दृष्टि में मैं प्रतापमय ६  
 हूँगा और मेरा परमेश्वर मेरा बल हागा, उसी ने  
 मुझ से अब कहा है यह तो हलकी सी बात होती कि  
 तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल  
 के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिये मेरा  
 दास ठहरता सो मैं तुम्हें अन्यजातियों के लिये ज्योति  
 ठहराऊँगा कि तू पृथिवी की छोर छोर लो भी मेरी  
 ओर से उद्धार का मूल हो । जो मनुष्यों से तुम्हें ७  
 जाना जाता और हम जाति से घिनौना समझा  
 जाता और अधिकारियों का दास है उस से इस्रा-  
 एल का छुड़ानेहारा और उसी का पवित्र अर्थात्  
 यहोवा यों कहता है कि राजा देखकर खड़े हो  
 जाएंगे और हाकिम दण्डवत् करेंगे और यह यहोवा के  
 निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और  
 उस ने तुम्हें चुन लिया है । यहोवा यों कहता है कि ८  
 अपनी प्रसन्नता के समय मैं ने तेरी सुन ली और  
 उद्धार करने के दिन मैं ने तेरी सहायता की है सो मैं  
 तेरी रक्षा करके तेरे द्वारा लोगों के साथ वाचा बाधूँगा<sup>६</sup>  
 कि तू देश को सुभागी<sup>७</sup> करे और उजड़े हुए स्थानों को  
 उन के अधिकारियों के हाथ में फेर दे, और बंधुओं ९  
 से कहे कि बन्दोष्ट से निकल आओ और जाँ अन्धियारे  
 में हैं उन से कहे कि प्रकाश में आओ<sup>८</sup> । वे मार्गों के  
 किनारे किनारे चरने पाएँगे और सब मुण्डे टोलों पर भी  
 उन को चराई मिलेगी । वे न भूखे होंगे न प्यासे और १०  
 न लूह न घाम उन्हें लगेगा क्योंकि जो उन पर दया  
 करता सो उन को ले चलेगा और जल के सोतों के

(१) मूल में पहिला । (२) मूल में पिछला । (३) वा प्रभु  
 यहोवा ने मुझे और अपने आत्मा को भेज दिया है ।

(४) मूल में मुँह । (५) मूल में मेरा न्याय यहोवा के पास  
 है । (६) मूल में तुम्हें लोगों की वाचा ठहराऊँगा ।  
 (७) मूल में खड़ा । (८) मूल में अपने को प्रगट करो ।

- ११ पास पास से चलाएगा । और मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग कर दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे हो जाएंगे ।
- १२ देखो ये तो दूर से आएंगे और ये उत्तर और पच्छिम से और ये सीनियों के देश से आएंगे । हे आकाश जय-जयकार कर हे पृथिवी मगन हो हे पहाड़ो गला खोलकर जयजयकार करो क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शान्ति दी और अपने दीन लोगों पर दया की है ॥
- १४ परन्तु सिड्योन ने कहा है कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया मेरा प्रभु ने मुझे बिसरा दिया है ।
- १५ क्या कोई स्त्री अपने दुर्घापउवे बच्चे को ऐसा बिसरा सकती कि अपने उस जने हुए लड़के पर दया न करे हां वह तो भूल सकती है पर मैं तुम्हें भूल नहीं सकता । सुनो मैं ने तेरा चिह्न अपनी हथेलियों पर खान्दकर बनाया है तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि में लगातार बनी रहती है । तेरे लड़के तो फूर्ती से आ रहे हैं और तेरे दानेहारे और उजाड़नेहारे तेरे मध्य से निकले जा रहे हैं । अपनी आँखें उठाकर चारों ओर देख कि वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सोह तू उन समों को गाँहने के समान पहिनेगी और दुल्हन की नाई अपने शरीर में बांध लेगी । और तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खरबहर ही खरबहर हैं उन में निवासी अब न समाएंगे और तेरे नाश करनेहारे दूर हो जाएंगे । तेरे जो पुत्र जाते रहे सो तेरे कान में कहने पाएंगे कि यह स्थान हमारे लिये सकेत है हमें और स्थान दे कि उस में रहें । तब तू मन में कहेगी कि किस ने मेरे लिये इन को जन्माया मेरे पुत्र तो जाते रहे थे और मैं बाँझ ही गई मैं बंधुई और भगेडू हो गई सो इन को किस ने पाला देख मैं अकेली रह गई थी अब ये कहाँ से आये ॥
- २२ प्रभु यहोवा यों कहता है कि सुन मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की और बढाऊँगा और देश देश के लोगों के साम्हने अपना झण्डा खड़ा करूँगा तब वे तेरे बेटों को अपनी गोद में ले आएंगे और तेरी बेटियों को अपने कन्धे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुँचाएंगे । और राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उन की रानियाँ तेरी वृष मिलानेहारियाँ होंगी वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुम्हें दण्डबत् करेंगे और तेरे पाँवों की धूल चाट लेंगे सो तू यह जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ और मेरी

बाट जोहनेहारों की आशा कभी नहीं टूटने की । क्या वीर के हाथ से लूट छीन ली जाए वा धर्मी के बन्धुए कुड़ाये जाएँ । तौभी यहोवा यों कहता है कि हां वीर के बंधुए उस से छीन लिये जाएंगे और बलात्कारी की लूट उस के हाथ से कुड़ाई जाएगी क्योंकि जो तुम्ह से मुकहमा लड़ते हैं उन से मैं आप मुकहमा लड़ूँगा और तेरे लड़केबालों का मैं आप उदार करूँगा । और जो तुम्ह पर अंधेर करते हैं उन को मैं उन्हीं का मांस खिलाऊँगा और वे अपना लोह पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नये दाखमधु से होते हैं तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उदारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ानेहारा याकूब का शक्तिमान् मैं ही हूँ ॥

### ५०. तुम्हारी माता का त्यागपत्र जिसे मैं ने उस को छोड़ देने के

समय दिया सो कहा है और न्योपारियों में से मैं ने किस के हाथ तुम्हें बेच दिया है । यहोवा यों कहता है कि सुनो तुम अपने अधर्म के कामों के कारण बिक गये और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई । इस का क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला और जब मैं ने पुकारा तब कोई न बोला क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता और क्या मुझ में इतना शक्ति नहीं कि न उबार सकूँ देखो मैं तो समुद्र को घुड़कते ही सुला डालता और महानदों को जंगल बना देता हूँ उन की मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती हैं । मैं तो आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहिनाता और टाट ओढ़ा देता हूँ ॥

प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्यों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूँ वह भोर भोर को मुझे जगाकर मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य की रीति सुनूँ । प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैं ने हठ न किया न पीछे हट गया । मैं ने मारने-हारों की और अपनी पीठ और गलमोछ नोचनेहारों की और अपने गाल किये मैं ने अपमानित होने और उन के थूकने से मुँह न मोड़ा । क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा इस कारण मैं ने संभच नहीं किया वरन अपना माथा चकमक की नाई कड़ा किया क्योंकि मुझे निश्चय था कि मेरी आशा न टूटेगी । जो मुझे धर्मी ठहराता है सो मेरे निकट है कौन मेरे साथ मुकहमा करेगा हम एक संग खड़े हों जो कोई मेरा

(१) मूल में तुम्ह । (२) मूल में तेरे लड़कों के जाते रहने के बेटे ।  
(३) मूल में उठाऊँगा ।

(४) मूल में न खिलाया ।

९ मुहई बनेगा वह मेरे निकट आए । सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा देखो वे सब कीड़े खाये हुए पुराने कपड़े की नाई नाश हो जाएंगे ।

१० तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उस के दास की सुनता है सो चाहे आन्धियारे में चलता हो और उसे कुछ उजियाला न दिखाई देता हो तौभी यहोवा का नाम का भरोसा रखे रहे और अपने परमेश्वर पर टेक लगाये रहे । देखो तुम जा आग बारते और अग्निबाणों को कमर में बांधते हो तुम सब अग्नी बारी हुई आग में और अपने जलाये हुए अग्निबाणों के बीच आप ही चले जाओ । तुम्हारी यह दशा मेरी ही और से होगी कि तुम सन्ताप में पड़े रहोगे ॥

**५९. हे धर्म पर चलनेहारो हे यहोवा के बूढ़ने-**

हारो कान लगाकर मेरी सुनो जिस चटान में से तुम खोदे गये और जिस खानि में से तुम निकाले गये उस पर ध्यान करो । अपने मूलपुरुष इब्रा-होम और अपनी माता मारा पर ध्यान करो जब वह अकेला था तब ही मैं ने उस को बुलाया और आशिष दी और बढ़ा दिया । यहोवा ने सियोन को शान्ति दी है उस ने उस के सब खंडहरों को शान्ति दी है और उस के जंगल को अदेन के समान और उस के निर्जल देश को यहोवा की बारी के समान कर दिया है उस में हर्ष और आनन्द और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा ॥

४ हे मेरी प्रजा के लोगो मेरी ओर ध्यान धरो हे मेरे लोगो कान लगाकर मेरी सुनो मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी<sup>(१)</sup> और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिये स्थिर रखूंगा । मेरा धर्म प्रगट होने पर है<sup>(२)</sup> मैं उद्धार करने लगा हूँ मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों के न्याय के काम करूंगा द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे । ६ आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथिवी को निहारो क्योंकि आकाश धुँए की नाई बिलाय जाएगा और पृथिवी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उस के रहनेहारो यों ही जाते रहेंगे पर जो उद्धार मैं करूंगा सो सदा लों ठहरेगा और मेरा धर्म जाता न रहेगा ॥

७ हे धर्म के जाननेहारो जिन के मन में मेरी व्यवस्था है तुम कान लगाकर मेरी सुनो मनुष्यों की की हुई नामधराई से मत डरो और उन के निन्दा करने से

विस्मित न हो । क्योंकि धुन उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें उन की नाई खाएगा पर मेरा धर्म सदा लों ठहरेगा और मेरा किया हुआ उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी लों बना रहेगा ॥

हे यहोवा की मुजा जाग जाग बल धारण कर जैसे प्राचीन काल के दिनों में और अगली पीढ़ियों के समय में वैसे ही अब भी जाग क्या तू वही नहीं है जिस ने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और मगरमच्छ को घायल किया था । क्या तू वही नहीं है जिस ने समुद्र को अर्थात् गहिरा सागर के जल को सुखा डाला और उस की बाह में अपने छुड़ाये हुआ के पाव जाने के लिये मार्ग निकाला था । सो यहोवा के छुड़ाये हुए लोग लौट कर जयजय-कार करते हुए सियोन में आएंगे और उन को सदा का आनन्द मिलेगा<sup>(४)</sup> वे हर्ष और आनन्द प्राप्त करेंगे और शोक और लम्बी सांस भरना जाता रहेगा ॥

मैं तो मैं ही तेरा शान्तिदाता हूँ सो तू कौन है जो विनाशी मनुष्य से और घास सरीखे मुर्झानेहारो<sup>(५)</sup> आदमी से डरता है, और आकाश के ताननेहारो और पृथिवी की नेव डालनेहारो अपने कर्त्ता यहोवा को भूल जाता है और जब जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है तब तब उस की जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथरता है पर द्रोही की जलजलाहट कहां रही । जो भुकाया हुआ है सो शीघ्र छुड़ाया जाएगा वह गड़हे में न मरेगा और उस का आहार न घटेगा । जो समुद्र को विलोडता और उस की लहरों को गरजाता है सो मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है । और मैं ने तुम्हें अपने वचन सिखाये<sup>(६)</sup> और अपने हाथ की आड़ में छिपा रक्खा है कि मैं आकाश तानूँ<sup>(७)</sup> और पृथिवी की नेव डालूँ और सियोन से कहूँ कि तू मेरी प्रजा है ॥

हे यरूशलेम जाग उठ जाग उठ खड़ी हो जा तू ने यहोवा के हाथ से उस की जलजलाहट के कटोरे में से पिया है तू ने कटोरे में का लड़खड़ा देनेद्वारा मद पूरा पूरा पी लिया है । जितने लड़के वह जनी है उन में से कोई न रहा जो उसे धीरे धीरे ले चले और जितने लड़के उस ने पाले पोसे उन में से कोई न रहा जो उस के हाथ को थाम्म ले । ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी हैं सो कौन तेरे संग विलाप करेगा उजाड़ और विनाश और

(४) मूल में उन के सिर पर सदा का आनन्द होगा ।

(५) मूल में सरीखे बननेहारो ।

(६) मूल में मैं ने तेरे मुँह में अपने वचन डाले ।

(७) मूल में आकाश को पीधे की नाई लगाऊँ ।

(१) मूल में निकलेगी । (२) मूल में निफट है । (३) मूल में मेरा उद्धार निकला है ।

महंगी और तलवार आ पकी है मैं किस रीति<sup>१</sup> तुम्हें शान्ति  
 २० दे सकता। तेरे लड़के मूर्च्छित होकर एक एक सड़क के  
 सिरे पर महाजाल में फंसे हुए हरिण की नाईं पड़े हैं  
 यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की घुड़की  
 २१ के कारण वे अचेत पड़े हैं<sup>२</sup>। इस कारण हे दुखियारी  
 तू मतबाली तो है पर दाखमधु भीकर नहीं तू यह बात  
 २२ सुन। तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकद्दमा  
 लड़नेहारा तेरा परमेश्वर है सो यों कहता है कि सुन  
 मैं लड़खड़ा देनेहारे मद के कटोरे का अर्थात् अपनी  
 जलजलाहट के कटोरे का तेरे हाथ से ले लेता हूँ सो तुम्हें  
 २३ उस में से फिर कभी पीना न पड़ेगा। और मैं उसे तेरे  
 उन दुःख देनेहारों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुम्हें से  
 कहा कि लोट जा कि हम तुम्हें पर पांव देकर चलें<sup>३</sup>  
 और तू ने आँधे मुंह भूमि पर गिरकर अपनी पीठ का  
 सड़क सी बना दिया<sup>४</sup> ॥

५२. हे सियोन जाग जाग अपना बल  
 धारण कर हे पवित्र नगर यरूश-

लेम अपने शोभायमान वस्त्र पहिन ले क्योंकि तेरे बीच  
 खतनाशित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने  
 २ पाएंगे। अपने पर से धूल झाड़ दे हे यरूशलेम उठकर  
 विराजमान हो हे सियोन की बंधुई बेटों अपने गले के  
 बंधन का खोल दे ॥

३ यहोवा तो यों कहता है कि तुम जो संतमेंत  
 बिक गये थे सो बिना रुपया दिये छुड़ाये भी जाओगे।  
 ४ फिर प्रभु यहोवा यों भी कहता है कि मेरी प्रजा तो  
 पहिले पहिल मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी  
 और अशूरियों ने भी उस पर बिन कारण अंधेर  
 ५ किया। सो अब यहोवा की यह बाणी है कि मैं यहां  
 क्या करता हूँ मेरी प्रजा संतमेंत हर ली गई है यहोवा  
 की यह भी बाणी है कि जो उस पर प्रभुता करते हैं  
 सो जयजयकार करते हैं और मेरे नाम की निन्दा  
 ६ दिन भर लगातार होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा  
 मेरा नाम जान लेगी इसी कारण वह उस समय जान  
 लेगी कि जो बातें करता है सो यहोवा ही है देखो मैं  
 वही हूँ ॥

७ पहाड़ों पर उस के पांव क्या ही सोहते हैं जो  
 शुभ समाचार देता और शान्ति की बात सुनाता और  
 कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार होने का सन्देश

(१) मूल में मैं कौन। (२) मूल में घुड़कों से भरे हैं। (३) मूल में  
 कि हम आगे चलें। (४) मूल में तू ने आगे चलनेहारे के लिए  
 अपनी पीठ भूमि और सड़क के समान रखी।

देता और सियोन से कहता है कि तेरा परमेश्वर  
 राजा हुआ है। सुन तेरे पहरेदार पुकार रहे हैं एक =  
 साथ जयजयकार कर रहे हैं क्योंकि वे सान्नात देखते हैं  
 कि यहोवा सियोन को क्योंकि लौटाये लाता है।  
 हे यरूशलेम के खंडहरी एक संग उमंग में आकर ९  
 जयजयकार करो क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को  
 शान्ति दी और यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा १०  
 ने सारी जातियों के साम्हने अपनी पवित्र भूजा प्रगट  
 की है और पृथिवी के दूर दूर देशों के सब लोग  
 हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखते हैं। दूर ११  
 हो दूर वहां से निकल जाओ कोई अशुद्ध वस्तु मत  
 लूओ उस के बीच से निकल जाओ हे यहोवा के पात्रों  
 के दोनेहारों अपने को शुद्ध करो। क्योंकि तुम को न १२  
 उतावली से निकलना न भागते हुए चलना पड़ेगा  
 क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे और हस्तापल का  
 परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा ॥

देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा वह ऊंचा १३  
 महान और अति उन्नत हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग १४  
 तुम्हें देखकर चकित हुए (क्योंकि उस का रूप यहां लौं  
 थिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ा और  
 उस की सुन्दरता भी कि आदमियों की सी न रह गई),  
 वैसे ही वह बहुत सी जातियों पर छिड़केगा और उस १५  
 को देखकर राजा चुपचाप रहेंगे<sup>५</sup> क्योंकि वे तब ऐसी  
 बात देखेंगे जिस का वर्णन उन के सुनते कभी न किया  
 गया हो और ऐसी बात समझ लेंगे जो उन्होंने कभी  
 न सुनी हो ॥

५३. जो समाचार हम को दिया गया था  
 उस का किस ने विश्वास किया

और यहोवा का मुजबल किस पर प्रगट हुआ। वह तो २  
 उस के साम्हने अंकुर की नाईं और ऐसी जड़ की शाखा  
 के समान बढ़ा होता गया जो निर्जल भूमि में हो उस  
 की न तो कुछ सुन्दरता थी और न कुछ तेज और जब  
 हम उस को देखते थे तब उस का ऐसा रूप हमें न देख  
 पड़ता था कि हम उस को चाहते। वह तुच्छ जाना ३  
 जाता था और पुरुषों का त्यागा हुआ था वह दुःखी  
 पुरुष था और रोग से उस की जान पहिचान थी और  
 जैसा कोई जिस से लोग मुल फेर लेते हैं वैसा वह  
 तुच्छ जाना जाता था और हम उसे लेखे में न  
 लाते थे ॥

निश्चय वह हमारे ही रोगों को उठाता था और ४

(५) मूल में राजा अपने मुंह मन्देंगे।

हमारे ही दुःखों से लदा हुआ था तौमी हम लोग उस का पिटा हुआ और परमेश्वर का मारा हुआ और ५ दुर्दशा में पड़ा हुआ समझते थे। पर वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया था जिस ताड़ना से हमारे लिये शान्ति उपजे सो उस पर पड़ी और उस के कोड़े ६ खाने से हम लोग चंगे हो सके? हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गये थे बरन हम ने अपना अपना मार्ग लिया पर यहोवा ने हम सभी के अधर्म का भार उसी पर डाल दिया ॥

७ उस पर अंधेर किया गया पर वह सहता रहा और अपना मुँह न खोला। जैसे भेड़ बध होने को जाने के समय वा भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती ८ है वैसे ही उस ने भी अपना मुँह न खोला। अंधेर और निर्णय से वह उठा लिया गया और उस के समय के लोगों में से किस ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच से उठा लिया जाता है मेरे लोगों ही के ९ अपराध के कारण उस पर भार पड़ी है। और उस की कबर दुष्टों के संग और उस की मृत्यु के समय धनवान् के संग ठहराई गई तौमी<sup>२</sup> उस न कुछ उपद्रव न किया था और न उस के मुँह से कभी छल की बात निकली थी ॥

१० तौमी यहोवा को यह भावा कि उसे कुचले उसी ने उस को गी कर दिया जब तू उस का प्राण दोष-वलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीता रहेगा और उस के हाथ से यहोवा की ११ इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने मन के खेद का फल देखकर शान्ति पाएगा<sup>३</sup> अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और वह उन के अधर्म के कामों का भार आप उठाए रहेगा। इस कारण मैं उसे १२ बड़ों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा यह इस का पलटा होगा कि उस ने अपना प्राण मृत्यु के वश कर दिया<sup>४</sup> और वह अपराधियों के संग गिना गया पर उस ने बहुतों के पाप का भार उठा लिया और अपराधियों के लिये बिनती करता है ॥

**५४. हे** बाँक तू जो कभी न जनी जय-जयकार कर तू जिसे जनने की पीड़ न हुई गला खोलकर जयजयकार कर और पुकार क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से

(१) मूल में हमारे लिये चङ्गापन है।

(२) वा क्योंकि।

(३) मूल में तप्त होगा।

(४) मूल में मृत्यु के लिये उखेल दिया।

अधिक हैं यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का २ स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं हाथ मत रोक रस्सियों को लम्बी और खूंटों को हट ३ कर। क्योंकि तू दाहने बाएँ फैलेगी आर तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी हागा और उजड़े हुए नगरों को ४ बसाएगा। तू मत डर क्योंकि तेरी आशा न टूटेगी और तू लज्जित न हो क्योंकि तुझ पर सियाहा न छाएगी क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई फिर स्मरण न करेगी। ५ क्योंकि तारा कर्ता तेरा पति है उस का नाम सेनाओं का यहोवा है आर इस्राएल का पवित्र तेरा लुड़ानेहारा है और वह सारी पृथिवी का भी परमेश्वर कहलाएगा। ६ क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया स्त्री और जवानों में निकाली हुई स्त्री है तेरे परमेश्वर का यही वचन है। क्षण भर ही ७ क लिये मैं ने तुझे छोड़ तो दिया था पर अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। काध के झक्रेरे में आकर ८ मैं ने पल भर के लिये तुझ से मुँह छिपाया तो था पर करुणा करके मैं तुझ पर सदा के लिये दया करूँगा तेरे लुड़ानेहारे यहोवा का यही वचन है। यह तो मेरे लेखे ९ नूह के समय के जलप्रलय के समान है क्योंकि जैसे मैं ने किरिया खाई थी कि नूह के समय के जलप्रलय से पृथिवी फिर न डूबेगी वैसे ही मैं ने यह भी किरिया खाई है कि आगे को तुझ पर क्रोध न करूँगा और न तुझ को घुड़कूँगा। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल १० जाएं तौमी मेरी करुणा तुझ पर से न हटेगी और मेरी शान्तिवाली बाचा न टलेगी यहोवा का जो तुझ पर दया करता है यही वचन है ॥

ह दुःखियारों तू जो आंधा की सताई है और जिस ११ को शान्ति नहीं मिली सुन मैं तेरे पत्थरों को पत्थीकारों करके वैश्रऊगा आर तेरा नेव में नीलमणि डालूँगा। और मैं १२ तेरे कलश माणिक्य के और तेरे फाटक लालदियों के और तेरे सब सिवानों को मनोहर रत्नों के बनाऊँगा। आर तेरे १३ सब लड़के यहोवा के सिखाये हुए होंगे और उन को बड़ी शान्ति मिलेगा। तू धर्मी होने के द्वारा स्थिर होगी तू अंधेर १४ से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन लोग भीड़ लगाएंगे पर मेरी और से नहीं जितने १५ तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएँ सो तेरे कारण गिरगे। सुन जो १६ कारीगर आग में के काएले फूंक फूँकर अपनी कारीगरी के अनुसार हाथियार बनाता है सा मेरा ही सिरजा हुआ है और उजाड़ने के लिये नाश करनेहारा भी मेरा ही



१७ खिरजा हुआ है। जितने हथियार तेरी हानि के लिये बनाये जाएं उन में से कोई सफल न होगा और जितने लोग मुहर्ष होकर तुझ पर नाशिश करें? उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे यहोवा की यही वाणी है ॥

**५५. अहो सब प्यासे लोगो पानी के पास**

आओ और जिन के पास कुछ रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ बरन आकर दाखमधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम ले २ लो। जो भोजनवस्तु नहीं है उस के लिये तुम क्यों रुपया लगाते हो और जिस से पेट नहीं भरता उस के लिये क्यों परिश्रम करते हो मेरी ओर मन लगाकर सुनो तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी ३ वस्तुएं खाकर सन्तुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ सुनो तब तुम जीते रहोगे<sup>२</sup> और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा अर्थात् दाऊद पर ४ की झटल करूंगा की। सुनो मैं ने उस को राज्य राज्य के लोगों के लिये साक्षी और प्रधान और आज्ञा देनेहारा ५ ठहराया है। सुन तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी क्योंकि उस ने तुझे शोभायमान किया है ॥

६ जब लों यहोवा मिल सकता है तब लों उस की खोज में रहे जब लों वह निकट है तब लों उस को ७ पुकारो। दुष्ट अपनी चालचलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे ८ और वह पूरी रीति से उस की जमा करेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे और तुम्हारे सोच विचार एक समान नहीं और न तुम्हारी और ९ मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और १० पृथिवी का अन्तर है<sup>२</sup>। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां ये ही लौट नहीं जाते बरन भूमि पर पड़कर<sup>४</sup> उपज उपजाते और इसी रीति बोनहार ११ को बीज और खानेहारों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार

(१) मूल में जितनी जीमें तेरे साथ उठें।

(२) मूल में तुम्हारे प्राण जीवेंगे।

(३) मूल में आकाश पृथिवी से ऊंचा है वैसे ही मेरी गति तुम्हारी गति से और मेरे सोच विचार तुम्हारे सोच विचारों से ऊंचे हैं।

(४) मूल में भूमि को सींचकर।

से मेरा बचन भी जो मेरे मुख से निकलता है सो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा जो मेरी इच्छा हुई हो उस को वह पूरी ही करेगा और जिस काम के लिये मैं ने उस को भेजा हो सो पूरा होगा<sup>५</sup>। सो तुम आनन्द के साथ १२ निकलोगे और शान्ति के साथ पहुंचाये जाओगे तुम्हारे भागे भागे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जयजय-कार करेंगी और मैदान के सारे वृक्ष आनन्द के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटैयों की सन्ती सनोबर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों की सन्तों मेंहरी उगेंगी और इस से यहोवा का नाम होगा और सदा का चिन्ह रहेगा जो कभी मिट न जाएगा ॥

**५६. यहोवा यों कहता है कि न्याय का**

पालन करो और धर्म के काम करो क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा<sup>६</sup> और मेरा धर्मी होना प्रगट होने पर है। क्या ही घ-य है २ वह मनुष्य जो ऐसा ही करता और वह आदमी जो इस को धरे रहता है जो विश्रामादन को अपवित्र करने से बचा रहता और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। और जो जां परदेशी यहोवा से ३ मिले हुए हैं सो न कहें कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा और खोजे भी न कहें कि हम तो सुख वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्रामादिन मानते ४ और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं उन के विषय यहोवा यों कहता है कि, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के ५ भीतर उन को ऐसा स्थान और नाम दूंगा जो बेटे बेटियों से कहीं उत्तम होगा बरन मैं उन का नाम सदा बनाये रखूंगा<sup>७</sup> और वह कभी मिट न जाएगा। परदेशी भी ६ जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उस की सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उस के दास हो जाएं जितने विश्रामादिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा को पालते हैं, उन को ७ मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनन्दित करूंगा उन के होमबलि और मेल-बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किये जाएंगे क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिये प्रार्थना का घर कहाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाल दिये हुए इस्राएलियों को इकट्ठे ८ करनेहारा है उस की यह वाणी है कि जो इकट्ठे किये

(५) मूल में उस में सुफल होगा।

(६) मूल में मेरा उद्धार आने का निकट है।

(७) मूल में उन को सदा का नाम दूंगा।

गये हैं उन से मैं औरों को भी हकट्टे करके मिला दूंगा ॥

- ९ हे मैदान के सारे जन्तुओं हे वन के सब जन्तुओं  
 १० खा डालने के लिये आओ। उस के पहलूए अंधे हैं वे  
 सब के सब अशानी वे सब के सब गुंगे कुत्ते हैं जो भूक  
 नहीं सकते वे स्वप्न देखनेहारे और लेटनेहारे और ऊंधने  
 ११ के चाहनेहारे हैं। वे तो मरभूखे कुत्ते हैं जो तुत कभी  
 नहीं होते और वे ही चरबाहे हैं उन में समझ की  
 शक्ति नहीं उन सभी ने अपने अपने लाभ के लिये अपना  
 १२ अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं कि आओ हम दाखमधु  
 ले आएँ और मदिरा पीकर छुक जाएँ कल का दिन तो  
 आज सरीखा अत्यन्त बड़ा दिन होगा ॥

**५७. धर्मी** जन नाश होता है पर कोई

इस बात की चिन्ता नहीं करता और भक्त मनुष्य उठा लिये जाते हैं पर कोई नहीं सोचता कि धर्मी जन विपात्त के होने से पहिले उठा लिया जाता है। वह शांति के पहुँचता है जो सीधा चला जाता है सो अपनी खाट पर विश्राम करता है ॥

- ३ हे टोनहाइन के लड़के हे व्यभिचारी और व्यभि-  
 ४ चारिनी की सन्तान इधर निकट आ। तुम किस पर हंसी करते और मुह बनाकर बिराते हो? क्या तुम  
 ५ पाखण्डी और भूठे नहीं हो। तुम तो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में टांगों की दरारों के बीच बालबच्चों को बध करते हो।  
 ६ नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे? ऐसी ही वस्तुओं का तू तपान देती और अन्नबलि चढ़ाती है क्या मैं इन बातों पर शान्त होऊँ। बड़े ऊँचे पहाड़ पर तू ने अपना बिछोना बिछाया है वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई है। तू ने अपनी चिन्हानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रक्खी और तू मुझे छोड़कर औरों को अपने तई दिखाने के लिये चढ़ी तू ने अपनी खाट चौड़ी की और उन से वाचा बांध ली और तू ने उन की खाट में प्रीति रक्खी जहाँ तू ने  
 ९ उस को देखा। और तू तेल लिये हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई और अपने दूत दूर लों भेज दिये और अधोलोक लों अपने

को नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लम्बाई के कारण १० थक गई तौभी तू ने न कहा कि व्यर्थ है क्योंकि तेरा बल कुछ थोड़ा सा अधिक हो गया इसी कारण तू हार नहीं गई ७। तू ने जो झूठ कहा और मुझ को ११ स्मरण नहीं रक्खा और चिन्ता न की तो किस के डर से और किस का भय मानकर ऐसा किया क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा इस कारण तू मुझ से तो नहीं डरती। मैं आप तरे धर्म और कर्म का बर्णन १२ करूँगा पर उन से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। जब तू १३ दोहाई दे तब तेरी बटोरी हुई वस्तुएँ तुम्हें लुड़ाएँ वे तो सब की सब वायु से बरन एक फूँक से भी उड़ जायँगी पर जो मेरी शरण ले सो देश को भाग में पाएगा और मेरे पवित्र पर्वत का अधिकारी हो जाएगा। और यह १४ कहा जाएगा कि धुस बांध बांधकर राजमार्ग बनाओ और मेरी प्रजा के मार्ग पर से ठोकर दूर करो ॥

क्योंकि जो महान् और उन्नत और सदा बना १५ रहता है और जिस का नाम पवित्र ईश्वर है सो यों कहता है कि मैं ऊँचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उस के संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हरा करूँ। मैं तो सदा मुकहमा लड़ता न रहूँगा और न सर्वदा १६ क्रोधित रहूँगा नहीं तो आत्मा और मेरे बनाये हुए जीव मेरे साम्हने मूर्च्छित हो जाते। उस के लोभ के पाप के १७ कारण मैं ने क्रोधित होकर उस को दुःख दिया था और क्रोध के मारे उस से मुह फेरा था और वह अपने मनमाने मार्ग में दूर चलता गया था। मैं जो उस की १८ चाल देखता आया हूँ सो अब उस को चंगा करूँगा और उसे ले चलूँगा और उस को विशेष करके उस में के शोक करनेहारों को शांति दूँगा। मैं मुह के फल का १९ सिरजनहार हूँ यशोवा ने कहा है कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उस को चंगा करूँगा। दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र सगीले हैं २० जो स्थिर नहीं हो सकता और उस के जल में से मैल और कीच निकलती है। दुष्टों के लिये कुछ शांति २१ नहीं मेरे परमेश्वर का यही वचन है ॥

**५८. गला खोलकर पुकार रख मत छोड़**  
 नरसिंग का सा ऊँचा शब्द कर  
 मेरी प्रजा को उस का अपराध अर्थात् याकूब के घराने

- (१) मूल में फिर कुत्ते मरभूखे हैं वे तृप्ति नहीं जानते।  
 (२) मूल में मुह खोलकर जीव बढ़ाते हो।  
 (३) मूल में तुम अपराध के सन्तान भूठ का वंश।  
 (४) मूल में के नीचे। (५) मूल में वे ही वे ही तेरी छिट्टी।

- (६) मूल में तू ने अपने हाथ का जीव न पाया।  
 (७) मूल में तू बीमार नहीं हुई।  
 (८) मूल में नम्रों का आत्मा जिलाने को और चूर्णों का मन जिलाने को। (९) मूल में छिपाया।

- २ को उन का पार जता । वे तो दिन दिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति धूमने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्म करनेहारों लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला वे तो मुझ से धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं ।
- ३ वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हम ने तो उपवास किया पर तू ने इस की सुधि नहीं ली और हम ने तो दुःख उठाया पर तू ने कुछ विचार नहीं किया इस का कारण यह है कि तुम उपवास के दिन अपनी ही इच्छा पूरी करते
- ४ और अपने सब कठिन कामों को कराते हो । सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में झगड़ते और लड़ते और अन्याय से घुंसे मारते हो जैसा उपवास तुम आजकल करते हो उस से तुम्हारा
- ५ शब्द ऊंचे पर सुनाई नहीं देता । जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात् जिस में मनुष्य दुःख उठाए, क्या वह इस प्रकार का होता है क्या तुम फिर के झगड़ की नाई भुक्ताना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने
- ६ का उपाय' कहते हो । जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ सो क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाये हुए दासों और अंधे सहनेहारों का जूआ तोड़कर उन को छुड़ा देना और सब जूआओं को टुकड़े टुकड़े करना ।
- ७ क्या वह यह भी नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देनी और बपुरे मारे मारे फिरते हुआओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर बख पहिनाना और
- ८ अपने जातिभाइयों से अपने वा न छिपाना । तब तेरा प्रकाश पह फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और
- ९ यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा । तब तू पुकारेगा और यहोवा सुन लेगा तू दोहाई देगा और वह कहेगा कि मैं सुनाता हूँ । यदि तू अंधे करना<sup>४</sup> और अंगुली मटकानी और अनर्थ बात बोलनी छोड़ दे,
- १० और प्रेम से भूखे की सहायता करे<sup>५</sup> और दीन दुःखियों को सन्तुष्ट करे तो अधिपारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा ।
- ११ और यहोवा तुम्हें लगातार लिये चलेगा और झूरा पढ़ने के समय तुम्हें तृप्त और तेरी हड्डियों का हरी भरी करेगा और तू झींचा हुई बारी के और ऐसे सोते के समान

रहेगा जिस का जल कभी नहीं घटता । और तेरे बंध १२ के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और तू पीढ़ी पीढ़ी की पढ़ी हुई नेव पर घर उठाएगा तब तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारनेहारा और पथों का ठीक करनेहारा पड़ेगा । यदि तू विश्रामदिन को १३ अशुद्ध न करे<sup>७</sup> अर्थात् मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्रामदिन को आनन्द का दिन और यहोवा के पवित्र किये हुए दिन को मान्य समझ कर उस दिन अपने ही मार्ग पर न चलने और अपनी ही इच्छा पूरी न करने और अपनी ही बातें न बोलने से उस का मान करे, तो तू यहोवा के कारण १४ सुखी होगा और मैं तुम्हें देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और तेरे मूलपुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुम्हें खिलाऊंगा यहोवा ने यों कहा है ॥

५९. सुनो यहोवा का हाथ ऐसा निर्बल नहीं हो गया कि उद्धार न

कर सके और न वह ऐसा बहिरा<sup>९</sup> हो गया है कि न सुन सके । पर तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम को २ तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उस का मुंह तुम से ऐसा फिरा<sup>१०</sup> है कि वह नहीं सुनता । क्योंकि तुम्हारे हाथ<sup>११</sup> खून और अधर्म करने से अशुद्ध हो गये हैं तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें कही जाती हैं । कोई धर्म ४ के साथ नालिश नहीं करता और न कोई सच्चाई से मुकद्दमा लड़ता है वे मिथ्या पर भरोसा रखते और व्यर्थ बातें बकते उन को मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जनते हैं । वे सापिन के अण्डे सेवत और ५ मकड़ी के जाले बनाते हैं जो कोई उन के अण्डे खाता सो मर जाता है और जब कोई उस वा फोड़ता तब उस में से संपोला निकलता है<sup>१२</sup> । फिर उन के जाल कपड़े का काम ६ न देंगे और न वे अपने कामों से अपने को टांपेंगे क्योंकि उन के काम अनर्थ ही के हाते हैं और उन के हाथों से उग्रव का काम होता है । वे बुराई<sup>१३</sup> करने को दौड़ते ७ और निर्दोष का खून करने को फुर्ती करते हैं उन की युक्तियां अनर्थ की हैं और जहां जहां वे जाते हैं वहां वहां उजाड़ और विनाश होते हैं । शांति का मार्ग वे ८

(१) मूल में दिन । (२) मूल में कि दुष्टता के बंधन खालूगा और जूए का रस्सियां खोलना । (३) मूल में मुझे देख । (४) मूल में जूआ । (५) मूल में और भूखे के लिये अपना जीव खींच निकाले ।

(६) मूल में रहने के लिये पथों । (७) मूल में यदि विश्राम दिन से अपना पांव मंड़े । (८) मूल में छांटा । (९) मूल में उस का कान ऐसा भारी । (१०) मूल में छिपा । (११) मूल में और तुम्हारी अं. लियां । (१२) मूल में और कुचला हुआ संपोला फूटता है । (१३) मूल में उन के पांव बुराई ।

जानते नहीं और उन की लीकों में न्याय नहीं है उन के पथ टेढ़े हैं उन पर जो कोई चले सो शांति न पाएगा ॥

- ९ इस कारण न्याय का चुकाना हम से दूर है और धर्म हम से नहीं मिला हम उजियाले की बाट तो जोहते पर अंधियारा ही बना रहता है हम प्रकाश की आशा तो लगाये हैं पर घोर अंधकार ही में चलना १० पड़ता है । हम अंधों के समान हैं जो भीत टटोलते हैं हम बिन आंख के लंगो की नाई टटोलते हैं हम दिन दुपहरी रात की नाई ठोकर खाते हैं हम हृष्टपुष्टों के बीच ११ मुदों के समान हैं । हम सब के सब रीछों की नाई चिह्नाते हैं और पियडुकों के समान न्यून न्यून करते हैं हम निर्णय की बाट तो जोहते हैं पर कुछ नहीं होता १२ और उद्धार की पर वह हम से दूर रहता है । कारण यह है कि हमारे अपराध तेरे साम्हने बहुत हुए हैं और हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी देते हैं हमारे अपराध बने रहते हैं<sup>१</sup> और हम अपने अधर्म के काम जानते १३ हैं, कि हम ने यहोवा का अपराध किया और उस से मुकर गये और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ा और अचेर करने और फेर की बातें कहीं और झूठी बातें १४ मन में गर्दी और कधी भी हैं । और न्याय का चुकाना तो पीछे हटाया गया और धर्म दूर रह गया सच्चाई पाई नहीं जाती<sup>२</sup> और सिधाई प्रवेश करने नहीं पाती । १५ बरन सच्चाई मिलती ही नहीं और जो बुराई से फिर जाता है सो लूटा जाता है ॥ १६ यह देखकर यहोवा ने बुरा माना क्योंकि न्याय कुछ नहीं रहा और उस ने देखा कि कोई पुरुष नहीं और उस ने इस से अचंभा किया कि कोई बिनती करनेहारा नहीं तब उस ने अपने ही भुजबल से उद्धार १७ किया<sup>३</sup> और अपने धर्मी हाने से वह संभल गया । और उस ने धर्म को भिल्लम की नाई पहिन लिया और उस के सिर पर उद्धार का टोप रक्खा गया उस ने पलटा लेने का बख धारण किया और जलन को बागे की नाई १८ पहिन लिया है । वह उन की करनी के अनुमार उन को फल देगा वह अपने द्राहियों पर अपनी रिस भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उन की कमाई देगा वह द्वीपवासियों १९ को भी उन की कमाई भर देगा । तब पच्छिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उस की महिमा का भय मानेंगे क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करे तब यहोवा का आरमा उस के विरुद्ध भ्रष्टा

खड़ा करेगा और याकूब में जो अपराध से फिरते हैं उन २० के लिये सिन्धुन में एक छुड़ानेहारा आएगा यहोवा की यही वाणी है । और यहोवा यह कहता है कि जो वाचा २१ मैं ने उन से बांधा है सो यह है कि मेरा जो आरमा तुझ पर ठहरा है और अपने जो वचन मैं ने तुझे लिखाये<sup>४</sup> हैं सो अब से लेकर सर्वदा लो तेरी जीभ पर<sup>५</sup> और तेरे बेटों पोतों की जीभ पर भी चढ़े रहेंगे<sup>६</sup> यहोवा का यही वचन है ॥

६०. उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तुझे प्रकाश मिल गया है और यहोवा का तेज

तेरे ऊपर उदय हुआ है । देख पृथिवी पर तो अंधियारा २ और राज्य राज्य के लोगों पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है पर तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उस का तेज तुझ पर दिखाई देगा । और अन्यजातियों तेरे ३ प्रकाश की और राजा तेरो चमक की ओर चलेंगे । अपनी आखें चारों ओर उठाकर देख वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं तेरे बेटे तो दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में पहुंचाई जा रही हैं । तब तू इसे ५ देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय थरथराएगा और आनन्द से भर जाएगा<sup>७</sup> क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्यजातियों की धन संपत्ति तुझ को मिलेगी । तेरे देश<sup>८</sup> में ऊटों के झुण्ड और मिद्यान और एगदेशों की साइनियां भरेंगी शबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानु-बाद आनन्द से सुनाएंगे । वेदार की सब मेह बकरियां ७ इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे वे चढ़ावे में<sup>९</sup> मुझ से ग्रहण किये जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी शोभायमान कर दूंगा । ये कौन हैं जो बादल की नाई और ८ दबाओं की ओर उड़ते हुए पियडुकों की नाई उड़े आते हैं । निश्चय द्रोप मेरी ही बाट जोहेंगे पहिले तो तर्शाश के जहाज ९ आएंगे कि तेरे बेटों को सौने चान्दी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात् इस्राएल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाएं क्योंकि उस ने तुझे शोभायमान किया है । और परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उन १० के राजा तेरी सेवा टहल करेंगे क्योंकि मैं ने क्रोध में आकर तुझे दुःख तो दिया था पर अब तुझ से प्रसन्न होकर तुझ पर दया करता हूं । और तेरे फाटक लगातार ११

(१) मूल में हमारे अपराध हमारे संग हैं । (२) मूल में सच्चाई ने चौक में ठोकर खाई । (३) मूल में उसी की भुजा ने उस के लिये उद्धार किया ।

(४) मूल में तेरे मुंह में डाले । (५) मूल में तेरे मुंह से । (६) मूल में के मुंह से भी न हटेंगे । (७) मूल में और बढ़ेगा । (८) मूल में तुझ में । (९) मूल में वे मेरी बेदी पर ।

खुले रहेंगे और न दिन को न रात को बन्द किये जाएंगे जिस से अन्यजातियों की धन सम्पत्ति और उन के राजा १२ बंधुए होकर तेरे पास पहुंचाये जाएं । क्योंकि जिस जाति और राज्य के लोग तेरे अधीन न होंगे सो नाश होंगे वरन ऐसी जातियां पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएंगी । सवानोन का विभव अर्थात् सनौबर और तिघार और सीधे सनौबर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्रस्थान के ठांवा को शोभा दें और १४ मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा । और तेरे दुःख देनेहारों के सन्तान तेरे पास सिर भुकाये हुए आएंगे और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया था सो सब तेरे पांवों पर गिरकर दण्डवत् करेंगे और वे तुम्हें यशोवा का नगर और इस्राएल के पवित्र का १५ सिन्धोन कहेंगे । तू जो छोड़ी और धन की हुई है यहां लो कि कोई तुम्हें से होकर नहीं जाता इस की सन्ती मैं तुम्हें सदा के धमण्ड का और पीढ़ी पीढ़ी १६ के हर्ष का कारण ठहराऊंगा । और तू अन्यजातियों का दूष और राजाओं की छाती से पीएगी और तू जान लेगी कि मैं यशोवा तेरा उद्धारकर्ता और छुड़ानेहारा १७ और याकूब का शक्तिमान हूँ । मैं तुम्हें पीतल की सन्ती सीना और लोहे की सन्ती चान्दी और काठ की सन्ती पीतल और पत्थर की सन्ती लोहा दूंगा<sup>२</sup> और मैं मेल मिलाप को तेरे हाकिम और धर्म के तेरे चौधरी ठहराऊंगा । न तेरे देश में फिर उपद्रव की न तेरे सिवानों के भीतर उत्पात वा अन्धेर की चर्चा सुन पड़ेगी तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम १९ यश रखेगी । दिन में तो उजियाला पाने के लिये तुम्हें सूर्य का और रात में प्रकाश के लिये चन्द्रमा का फिर कुछ काम न पड़ेगा क्योंकि यशोवा तेरे लिये सदा का २० उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा । तेरा सूर्य फिर अस्त न होगा और तेरे चन्द्रमा की ज्योति मलिन न होगी<sup>३</sup> क्योंकि यशोवा तेरी सदा की ज्योति २१ ठहरेगा सो तेरे विलाप के दिन अन्त हो जाएंगे । तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे वे देश के अधिकारी सदा रहेंगे वे मेरे लगाये हुए पौधे और मेरे रत्न हुए<sup>४</sup> ठहरेंगे जिस से २२ मैं शोभायमान ठहरूँ । जो कम है सो हजार हो जाएगी और जो थोड़ा है सो सामर्थी जाति बन जाएगी मैं यशोवा इस के ठीक समय पर शीघ्र पूरा करूंगा ॥

(१) मूल में तेरे पांवों के तलुए पर ।

(२) मूल में लाऊंगा ।

(३) मूल में और तेरा चन्द्रमा न सिमटेगा ।

(४) मूल में मेरे हाथों का काम ।

६९. प्रभु यशोवा का आत्मा मुझ पर ठहरा है क्योंकि यशोवा ने नम्र

लोगों को शुभसमाचार सुनाने के लिये मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिये भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शान्ति दूं और बंधुओं के साम्हने स्वाधीन होने का और कैदियों के साम्हने छुटकारे का प्रचार करूं, और यशोवा के प्रसन्न रहने के बरस का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं और सब विलाप करने हारों को शान्ति दूं, और सिन्धोन में के विलाप करनेहारों के सिर पर की राख दूर करके सुन्दर पगड़ी बांध दूं और उन का विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊँ और उन की उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊँ जिस से वे धर्म के बाँधबुद्ध और यशोवा के लगाये हुए कहलाएँ कि वह शोभायमान ठहरे । सो वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और अगले दिनों से पड़े हुए खण्डहरों में फिर घर बनाएंगे और उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हैं फिर नये सिरे से बसाएंगे । और परदेशी तो खड़े खड़े तुम्हारी मेड़बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हरबाहे और दाख की भारी के माली होंगे । पर तुम यशोवा के याजक कहाओगे लोग तुम को हमारे परमेश्वर के टहलुए कहेंगे और तुम अन्यजातियों की धन संपत्ति को भोगोगे और उन के विभव की वस्तुएँ पाकर बढ़ाई मागोगे । तुम्हारी नामधराई की सन्ती दूना भाग मिलेगा और अनादर की सन्ती वे अपने भाग के कारण जयजयकार करेंगे सो वे अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनन्दित रहेंगे । क्योंकि मैं यशोवा न्याय में प्रीति रखता और बलिदान के साथ चोरी कर्नी धिनौनी समझता हूँ और मैं उन को उन का प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उन के साथ सदा की वाचा बांधूंगा । और उन का बंश अन्यजातियों में और उन की सन्तान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी जितने उन को देखेंगे सो उन्हें चीन्ह लेंगे कि यशोवा की ओर से धन्य वर के ये ही हैं ॥

मैं यशोवा के कारण अति हर्ष करता हूँ और अपने परमेश्वर के हेतु मगन हूँ, क्योंकि उस ने मुझे उद्धार के वस्त्र ऐसे पहिनाये और धर्म की चहुर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे वर याजक की सी सुन्दर पगड़ी बान्धता वा दुल्हन गहने पहिनती है । क्योंकि जैसे भूमि अपनी

उपज को उगाती और बागी में जो कुछ बोया जाता है उस को वह उपजाती है वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के साम्हने धर्म और यश उगाएगा ॥

## ६२. सियोन के निमित्त मैं तब लों

चुप न हूँगा और यरूशलेम के निमित्त मैं तब लों चैन न लूँगा जब लों उस का धर्म अरुशोदय की नाई और उस का उद्धार जलते हुए पलीते के समान दिखाई न दे। तब अन्यजातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जिसे यहोवा आप<sup>१</sup> ठहराएगा। और तू यहोवा के हाथ में का एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजकीय पगड़ी ठहरेगी। न तो तू फिर छोड़ी हुई और न तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई कहाएगी तू तो हेप्सीबा<sup>२</sup> और तेरी भूमि बूला<sup>३</sup> कहाएगी क्योंकि यहोवा तुझ से प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन हो जाएगी। जैसे जवान पुरुष कुमारी को ब्याहता है वैसे ही तेरे लड़के तुम्हें ब्याहेंगे और जैसे वर दुल्हन के कारण हर्षित होता है वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा ॥

हे यरूशलेम मैं ने तेरी शहरपनाह पर पहरेदार बैठाए हैं जो दिन भर और रात भर भी लगातार पुकारते रहेंगे<sup>४</sup> हे यहोवा को स्मरण करानेहारे चैन न लो, और जब लों वह यरूशलेम को स्थिर करके उस की प्रशंसा पृथिवी पर न फैला दे तब लों उस को भी चैन लेने न दो। यहोवा ने अपने दहिने हाथ की और अपने बलवन्त भुजा की किरिया खाई है कि मैं फिर तेरा अन्न तेरे शत्रुओं को खाने के लिये न दूँगा और न बिराने लोग तेरा नया दाखमधु जिस के लिये तू ने परिश्रम किया हो पीने पाएंगे। पर जिन्हों ने उसे खत्ते में रखा हो सोई उस को खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे और जिन्हों ने दाखमधु भण्डारों में रखा हो वे ही उसे मेरे पवित्रस्थान के आंगनों में पीने पाएंगे ॥

फाटकों से निकल आओ निकल आओ प्रजा के लिये मार्ग सुधारी धुस बांधकर राजमार्ग बनाओ उस में के पत्थर बीन बीनकर फेंक दो देश देश के लोगों के लिये भण्डा खड़ा करो। सुनो यहोवा पृथिवी की छोर लों इस आज्ञा का प्रचार करता है कि सियोन

से<sup>५</sup> कहो कि देख तेरा उद्धारकर्ता आता है देख जो मजूरी उस को देनी है सो उस के पास और जो बदला उस को देना है सो उस के हाथ में<sup>६</sup> हैं। और लोग उन के पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाये हुए कहेंगे और तेरा नाम पूछी हुई और न छोड़ी हुई नगरी पड़ेगा ॥

## ६३. यह कौन है जो एदोम देश के बोसा

नगर से बैजनी वस्त्र पहिने हुए चला आता है और अति बलवान् और मड़कीला पहिरावा पहिने हुए भूमता चला आता है। मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करता हूँ<sup>७</sup> ॥

तेरा पहिरावा क्या लाल है और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हीद में दाख रौंदनेहारे के से हैं ॥

मैं ने तो हीद में अकेला ही दाखें रौंदी हूँ और देश देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया सो मैं ने कोप में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा उन के लोहू के छींटे जो मेरे वस्त्रों पर पड़े सो मेरा सारा पहिरावा मैला हो गया है। क्योंकि पलटा लेने का दिन मैं ने ठहराया था<sup>८</sup> और मेरे जनों के छुड़ाने का बरस आ गया है। और मेरे ताकने पर कोई सहायक न देख पड़ा और मैं ने इस से अचंभा भी किया कि कोई संभालनेहारा नहीं मिलता तब मैं ने अपने ही भुजबल से अपने लिये उद्धार किया और मेरी जलजलाहट मेरी संभालनेहारी है। मैं ने तो कोप में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा और अपनी जलजलाहट में उन्हें मतवाला किया और उन के लोहू के भूमि पर बहा दिया ॥

जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया अर्थात् इस्राएल के घराने पर दया और अत्यन्त करुणा करके उस ने हम से जितनी भलाई की उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों की चर्चा और उस का गुणानुवाद करूँगा। उस ने कहा कि निःसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग आर ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे सो वह उन का उद्धारकर्ता हो गया। उन के सारे संकट में उस ने भी संकट पाया<sup>९</sup> और उस का प्रत्यक्षरूप करनेहारा दूत उन का उद्धार करता था प्रेम और कामलता से वह आप उन को छुड़ा लेता

(५) मूल में सियोन की बेंटी से। (६) मूल में उस के साम्हने।

(७) मूल में उद्धार करने को बड़ा।

(८) मूल में मेरे मन में था।

(९) या वह संकट देनेहारा न था।

(१) मूल में यहोवा का मुख। (२) अर्थात् जिस से मैं प्रसन्न हूँ। (३) अर्थात् सुहागिन। (४) मूल में लगातार चुप न रहेंगे।

- या और प्राचीन काल के सब दिनों में उन्हें उठाये रहा ।
- १० तौमी उन्हें ने बलवा किया और उस के पवित्र आत्मा को खेदित किया इस कारण वह पलटकर उन का
- ११ शत्रु हो गया और आप उन से लड़ने लगा । तब उस के लोगों को प्राचीन दिन अर्थात् मूसा के दिन स्मरण आये वे कहने लगे कि जो अपनी मेढ़ों को उन के चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया सो कहां है जिस ने अपनी प्रजा के बीच अपना पवित्र आत्मा समवाया
- १२ सो कहां है । जो अपने भुजबल के प्रताप से मूसा के दहिने हाथ को संभालता गया<sup>१</sup> और अपने लोगों के साम्हने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया
- १३ सो कहां है । जो उन को गहिरें समुद्र में ऐसा ले चला जैसा घोड़े को जंगल में कि उन को ठोकर न लगे
- १४ सो कहां है । जैसे घरेला पशु नीचान में उतर जाता है वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उन को विश्राम दिया इसी प्रकार से तू ने अपनी प्रजा को पहुंचाकर अपना नाम
- १५ सुशोभित किया । स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और शोभायमान वासस्थान है दृष्टि कर तेरी जलन और पराक्रम कहां
- १६ रहा तेरी दया और मया मुझ पर से हट<sup>२</sup> गई है । तू तो हमारा पिता है इब्राहीम तो हमें नहीं पहिचानता और ह्साएल हमारी सुधि नहीं लेता तौमी हे यहोवा तू हमारा पिता है प्राचीन काल से भी हमारा छुड़ानेहारा
- १७ यही तेरा नाम है । हे यहोवा तू क्यों हम को अपने मार्गों से भटका देता और हमारा मन ऐसा कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते । अपने दासों अपने
- १८ निज भाग के गोश्रों के निमित्त लौट आ । तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही काल लों अधिकारों रही हमारे द्रोहियों
- १९ ने तेरे पवित्रस्थान को लताड़ दिया है । हम लोग तो ऐसे हो गये हैं कि मानो हम<sup>३</sup> पर तू ने कभी प्रभुता नहीं की और न हम कभी तेरे कहलाये ॥
६४. भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे साम्हने से कांप उठें,
- २ जैसे आग भाड़ भंखाड़ जला देती है वा जल को उबालती है उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रगट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठें ।
- ३ जब तू ने ऐसे भयानक काम किये जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे तब तू उतर आया और पहाड़ तेरे प्रताप
- ४ से कांप उठे । प्राचीन काल से तौ ऐसा परमेश्वर जो

अपनी बाट जोहनेहारों के लिये काम करे तुम्हें छोड़ न तो कभी देखा<sup>४</sup> गया न कान से उस की चर्चा सुनी गई । जो लोग धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे ५ मार्गों पर चलते हुए तुम्हें स्मरण करते हैं उन से तो तू मिलता है पर तू क्रोधित हुआ है क्योंकि हम पापी हुए और यह दशा बहुत काल से है सा हमारा उदार कहां हो सकता है । देख हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हो ६ गये और हमारे सारे धर्म के काम कुचैले चिथड़े सरीखे हैं फिर हम सब के सब पत्ते की नाईं मुर्झा गये और हमारे अधर्म के कामों ने वायु की नाईं हमें उड़ा दिया है । कोई तुझ से प्रार्थना नहीं करता और न कोई तुझ ७ से सहायता लेने के लिये उद्यत होता है क्योंकि तू ने अपना मुख हम से फेर<sup>५</sup> लिया और हमारे अधर्म के कामों के द्वारा हम को भस्म कर दिया है । तौमी हे यहोवा ८ तू हमारा पिता है देख हम तो मिट्टी और तू कुम्हार ठहरा हम सब के सब तेरे बनाये हुए<sup>६</sup> हैं । सो हे ९ यहोवा अत्यन्त क्रोधित न हो और न अनन्तकाल लों हमारा अधर्म को स्मरण रख विचार करके देख हम सब तेरी प्रजा हैं । देख तेरे पवित्र नगर जंगल हो गये शिथ्योन तो १० जंगल हो गया यरूशलेम उबड़ गया है । हमारा पवित्र ११ और शोभायमान भवन जिस में हमारे पितर तेरी स्तुति करते थे सो आग का कोर हो गया और हमारी सब मनभावनी वस्तुएं नाश हो गई हैं । हे यहोवा क्या इन १२ बातों के रहते भी तू अपने को रोके रहेगा क्या तू हम लोगों को इस अत्यन्त दुदशा में रहने देगा ॥

६५. जो मुझे पृच्छते न थे वे मुझे

खोजने लगे हैं और जो मुझे १  
छूंदते न थे उन को मैं मिलता हूँ और जो जाति मेरी २  
नहीं कहलाई उस से भी मैं कहता हूँ कि देख देख मैं ३  
हूँ<sup>७</sup> । मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन ४  
भर हाथ फैलाये रहता हूँ जो अपनी युक्तियों के अनुसार ५  
बुरे मार्ग में चलते हैं । सो ये लोग हैं जो मेरे साम्हने ६  
ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप ७  
जला जलाकर मुझे लगातार रिस दिलाते हैं । ये ८  
कबरों के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात ९  
बिताते और सूअर का मांस खाते और बिनीनी वस्तुओं ५  
का जूस अपने बर्तनों में रखते, और कहते हैं कि हट ५  
जा मेरे निकट मत आ क्योंकि मैं तुझ से पवित्र हूँ । ५  
ये मेरी नाक में धूप के और दिन भर जलाती हुई आग

(१) मूल में जो अपनी शोभायमान भुजा को मूसा के दहिने हाथ पर चलाता था । (२) मूल में बक । (३) पल में उन ।

(४) मूल में आंख से देखा । (५) मूल में छिपा । (६) मूल में तेरे हाथ का काम । (७) मूल में कि मुझे देख मुझे देख ।

- ६ के समान हैं । देखो मेरे साम्हने यह बात लिखी हुई है  
 ७ मैं चुप न रहूंगा मैं निश्चय पलटा दूंगा, वरन उन  
 की गोद में पलटा भर दूंगा अर्थात् तुम्हारे और तुम्हारे  
 पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का जो उन्होंने ने  
 पहाड़ों पर धूप जलाकर और पहाड़ियों पर मेरी निन्दा  
 करके किये । मैं यहावा कहता हूँ कि इन की कमाई मैं  
 पाँहले इन की गोद में माप दूंगा ॥
- ८ यहावा यों कहता है कि जिस भाँति जब दाख  
 के किसी गुच्छे में रस भर आता है तब लोग कहते हैं  
 कि उसे नाश मत कर क्योंकि उसमें आशिष है उसी  
 भाँति मैं अपने दासों के निर्ममर ऐश करूंगा कि सभों  
 ९ को नाश न करूँ । और मैं याकूब में से एक वंश और  
 यहूदा में से अपने पर्वतों का एक अधिकारी उत्पन्न  
 करूंगा सो मेरे चुने हुए उस के अधिकारी होंगे और  
 १० मेरे दास वहाँ बसेंगे । और मेरी प्रजा जो मुझे खोजती  
 है उस की तो भेड़बकरियाँ शायेन में चरेंगी और उस  
 ११ के गाय बैल आकार नाम तराई में बैठे रहेंगे । पर  
 तुम जो यहावा को त्याग देते और मेरे पवत्र पर्वत को  
 भूल जाते और भाग्य देवता के लिये मेज पर भोजन  
 की वस्तुएँ सजाते और भावी देवी के लिये मसाला  
 १२ मिला हुआ दाखमधु भर देते हो, मैं तुम्हारी यह भावी  
 कर दूंगा कि तुम्हें तलवार के लिए ठहराऊँगा और तुम  
 सब घात होने के लिए मुक्रोग इस का कारण यह है  
 कि जब मैं ने तुम्हें बुलाया तब तुम न बाले और जब मैं  
 ने तुम से बातें कीं तब तुम ने मेरी न सुनी वरन जो  
 मुझे बुरा लगता है सोई तुम ने किया और जिस से  
 मैं अपसन्न हाता हूँ उसी को तुम ने अपनाया ॥
- १३ इस कारण प्रभु यहावा यों कहता है कि सुनो मेरे  
 दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे मेरे दास तो पीएंगे  
 पर तुम प्यासे रहोगे मेरे दास तो आनन्द करेंगे पर  
 १४ तुम्हारी आशा टूटेगी । सुनो मेरे दास तो हर्ष के मारे  
 जयजयकार करेंगे पर तुम शोक से चिह्नाओगे  
 १५ और खेद के मारे हाथ हाथ करोगे । और प्रभु यहावा  
 तुम को तो नाश करेगा और मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी  
 उपमा दे कर साप देंगे और प्रभु यहावा तुम को तो  
 नाश करेगा पर अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा ।  
 १६ सब देश भर में जो कोई अपने को धन्य कहे सो सच्चे  
 परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा और  
 देश भर में जो कोई किरिया खाए सो सच्चे परमेश्वर

की किरिया खाएगा क्योंकि अगले कष्ट बिसर जाएंगे  
 और मेरी आँखा से छिप जाएंगे । क्योंकि सुनो मैं नथः १७  
 आकाश और नई पृथिवी सिरजने पर हूँ और अगली  
 बातें स्मरण न रहेगी और न फिर मन में आएंगी ।  
 सो जो मैं सिरजने पर हूँ उस के कारण तुम हर्षित १८  
 हो और सदा सर्वदा मगन रहो क्योंकि देखो मैं  
 यरूशलेम को मगन होने का और उस की प्रजा को  
 हर्ष का कारण ठहराऊँगा । और मैं आप यरूशलेम १९  
 के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित हूँगा  
 और उस में फिर रोम वा चिह्नाने का शब्द न सुन पड़ेगा ।  
 उस में फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा २०  
 जाता रहगा जिस ने अपनी आयु पूरी न की हो क्योंकि  
 जो लड़कपन में मरे सो सौ बरस का होकर मरेगा पर  
 पापा तो सौ बरस का होकर सापत ठहरेगा । वे घर बना २१  
 कर उन में बसेंगे और दाख की बारियाँ लगाकर उन का  
 फल खाएंगे । ऐसा न होगा कि वे तो बनाएँ और २२  
 दूसरा बसे वा व तो लगाएँ और दूसरा खाएँ क्योंकि मेरी  
 प्रजा की आयु वृद्धो का सी होगी और मेरे चुने हुए अपने  
 कामों का पूरा लाभ उठाएंगे । उन का परिश्रम व्यर्थ न २३  
 होगा और न उन के बालक धबराहट के लिए उत्पन्न  
 होंगे क्योंकि व यहावा के धन्य लोग का वंश हैं और उन  
 के बालबच्चे उन से अलग न होंगे । फिर उन के २४  
 पुकारने से भी पहिले मैं उन की सुनूँगा और उन के  
 मांगते ही मैं उन की सुन लूँगा । भेड़िया और मेम्ना २५  
 एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल का नाई भूसा  
 खाएगा और सप का आहार मिट्टी ही रहेगी । मरे सारे  
 पावत्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुःख देगा और  
 न कोई किसी की हानि करेगा यहावा का यही वचन है ॥

## ६६. यहावा यों कहता है कि मेरा सिंहासन

आकाश और मेरे चरणों की  
 पीढी पृथिवी है सो तुम मेरे लिये कैसा भवन बनाओगे  
 और मेरे विश्राम का कैसा स्थान होगा । यहावा की २  
 यह वार्ता है कि ये सब वस्तुएँ तो मेरे हाथ की बनाई  
 हुई हैं सो यह सब हो गईं मैं तो उसी की और दृष्टि  
 करूँगा जो दीन और खोदत मन का हो और मेरा  
 वचन सुनकर थरथरता हो । बैल का बलि करनेहारा ३  
 मनुष्य के मार डालनेहार के समान भेड़ का चढ़ानेहारा  
 कुत्ते का गला काटनेहार के समान अन्नबलि का  
 चढ़ानेहारा सूअर का लोहू चढ़ानेहार के समान और

(१) मूल में नथा दाखमधु ।

(२) मूल में तुम अपना नाम मेरे चुने हुएों के लिये किरिया छोड़ोगे ।

(३) मूल में आमेन [अर्थात् सत्य वचन] के परमेश्वर ।

(४) मूल में सिरजुँगा ।



लोबान का चबानेहार।<sup>१</sup> मूरत के घन्य कहनेहार के समान ठहरता है । वे जो अपने ही मार्ग निकालते और विनोनी वस्तुओं से प्रसन्न रहते हैं, इसलिये मैं भी उन के दुःख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाजंगा क्योंकि जब मैं ने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला और जब मैं ने उन से बातें कीं तब उन्हीं ने मेरी न सुनी वरन जो मुझे बुरा लगता है सोई वे करते रहे और जिस से मैं अप्रसन्न होता हूं उसी को वे अपनाते थे ॥

५ तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो उस का यह वचन सुनो कि तुम्हारे भाई जो तुम से बैर रखते और तुम को मेरे नाम के निमित्त अलग कर देते हैं उन्हींने तो कहा है कि भला यहोवा की महिमा बढ़े जिस से हम तुम्हारा आनन्द देखने पाएं पर अन्त में ६ उन्हीं को लजाना पड़ेगा । सुनो नगर से केलाहल मन्दिर से भी शब्द सुनाई देता है सो यहोवा का शब्द है जो अपने शत्रुओं को उन की करनी का फल देता ७ है । उस की पीढ़े उठने से पहिले ही वह जन चुकी उस ८ को पीढ़े लगने से पहिले ही उस से बेटा जन्मा । ऐसी बात किस ने कभी सुनी ऐसी बातें किस ने कभी देखीं क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता वा जाति क्षयमात्र में उत्पन्न हो सकती है तौमी सियोन पीढ़े ९ लगते ही बालकों को जनी । यहांवा कहता है कि क्या मैं बालकों को जन्मने लों पहुंचाकर न जनाऊं फिर तेरा परमेश्वर कहता है कि मैं जो जनाता हूं सो क्या कोख बन्द करूं ॥

१० हे यरूशलेम के सब प्रेम रखनेहारो उस के साथ आनन्द करो और उस के कारण मगन हो हे उस के विषय सब विलाप करनेहारो उस के साथ बहुत हर्षित ११ हो, जिस से तुम उस के शांतिरूपी स्तन से दूध पी पीकर तृप्त हो और दूध निकालकर उस की महिमा की बहु- १२ तायत से अत्यन्त सुखी हो । क्योंकि यहोवा यों कहता है कि सुनो मैं उस की और शांति को नदी की नाई और अन्यजातियों के विभव को बढ़ी हुई नदी के समान उस में बहा दूंगा और तुम उस में से पीओगे और गोद १३ में उठायें और घुटनों पर दुलारे जाओगे । जैसे माता पुत्र को<sup>२</sup> शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा १४ सो तुम को यरूशलेम में शांति मिलेगी । तुम यह देख-

कर प्रफुल्लित होंगे और तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ उस के दासों पर और उस के शत्रुओं के ऊपर उस का क्रोध प्रगट होगा । सुनो यहोवा आग के साथ आएगा और उस के रथ १५ बवएडर के समान होंगे जिस से वह भड़के हुए कोप के साथ दण्ड कौर भस्म करनेहारो लों के साथ बुझकी दे । क्योंकि यहोवा सारे प्राणियों के साथ आग और अपनी १६ तलवार लिये हुए न्याय चुकाएगा सो यहोवा के मारे हुए बहुतेरे होंगे । जो लोग अपने या इसलिये पवित्र और १७ शुद्ध करते हैं कि बारियों के बीच में जा किसी के पीछे खड़े होकर सूअर वा मूस का मांस और और विनोनी वस्तुएं खाएं सो एक ही संग विलाय जाएंगे यहोवा की यही वाणी है । क्योंकि मैं उन के काम और कल्पनाएं १८ दोनों जानता हूं और वह समय आता है कि मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारों को इकट्ठे करूंगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे । और मैं १९ उन में चिन्ह प्रगट करूंगा और उन में के बचे हुएों को मैं उन अन्यजातियों के पास मेजंगा जिन्हों ने न तो मेरा समाचार सुना और न मेरी महिमा देखी हो अर्थात् तर्शाशियों और धनुर्धारी पुलियों और लूदियों के पास फिर तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास मेज दूंगा और वे अन्यजातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे । और वे तुम्हारे सब भाइयों को षोड़ों २० रथों पालकियों खच्चरों और साड़ानियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा के लिये भेंट ऐसा ले आएंगे जैसा इस्राएली लोग अबवलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं यहोवा का यही वचन है । और उन में से भी मैं कितने २१ लोगों को याजक और लेवीय होने के लिये चुन लूंगा । क्योंकि जिस प्रकार जो नया आकाश और नई पृथिवी २२ में बनाने पर हूं सो मेरे साम्हने बनी रहेगी उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा यहोवा की यही वाणी है । और नये चांद के दिन से नये चांद २३ के दिन लों और विश्राम दिन से विश्राम दिन लों सारे प्राणी मेरे साम्हने दण्डवत् करने को आया करेंगे यहोवा का यही वचन है । तब वे निकलकर उन लोगों २४ की लोथों को जि-हां ने मुझ से बलवा किया देख लेंगे कि उन में पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे और न उन की आग कभी बुकेगी और सारे मनुष्यों को उन से अत्यन्त चिन्त होगी ॥

(१) मूल में स्मरण करानेहार ।

(२) मूल में पुरुष को ।

# यिर्मयाह नाम पुस्तक ।

१. हिल्कियाह का पुत्र यिर्मयाह जो  
बिन्यामीन देश के  
अनातोत में रहनेहारे याजकों में से या उस के ये  
२ वचन हैं। यहोवा का वचन उस के पास आमोन के  
पुत्र यहूदा के राजा योशियाह के दिनों में अर्थात् उस  
३ के राज्य के तेरहवें बरस में पहुँचा। फिर योशियाह  
के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में भी और  
योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकियाह के  
राज्य के ग्यारहवें बरस के अंत लों भी अर्थात् जब  
लौ उस बरस के पाँचवें महीने में यरूशलेम के निवासी  
बंधुआई में न गये तब लौ पहुँचा किया ॥

४ सो यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि।  
५ गर्भ में रचने से पहिले ही मैं ने तुझ पर चित्त लगाया  
था और उत्पन्न होने से पहिले ही मैं ने तुझे पवित्र  
६ किया मैं ने तुझे जातियों का नबी ठहराया था। तब मैं  
ने कहा अहह प्रभु यहोवा सुन मैं तो बोलना नहीं  
७ जानता क्योंकि लड़का ही हूँ। यहोवा ने मुझ से कहा  
मत कह कि मैं लड़का हूँ क्योंकि जहां कहीं मैं तुझे  
भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझ को कहने  
८ की आज्ञा दूँ सो तू कहेगा। तू उन से मत डर क्योंकि  
वचाने के लिये मैं तेरे संग हूँ यहोवा की यही वाणी  
९ है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुँह को छूआ  
यहोवा ने मुझ से कहा सुन मैं ने अपने वचन तेरे मुँह  
१० में डाले हैं। सुन मैं ने आज के दिन गिराने और ढा  
देने और नाश करने और काट डालने के लिये और  
बनाने और रोपने के लिये तुझे जातियों और राज्यों पर  
अधिकारी ठहराया है ॥

११ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि  
हे यिर्मयाह तुझे क्या देख पड़ता है मैं ने कहा शदाम  
१२ की एक टहनी मुझे देख पड़ती है। तब यहोवा ने  
मुझ से कहा तुझे ठीक देख पड़ता है क्योंकि मैं अपने  
१३ वचन को पूरा करने के लिये सचेत रहता हूँ। फिर  
यहोवा का वचन मेरे पास दूसरी बार पहुँचा और  
उस ने पूछा तुझे क्या देख पड़ता है मैं ने कहा मुझे  
सौलते हुए जल का एक हयडा देख पड़ता है जिस

का मुँह उत्तर दिशा से फेरा हुआ है। तब यहोवा ने १४  
मुझ से कहा इस देश के सब रहनेहारों पर विपत्ति  
उत्तर दिशा से आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है १५  
कि मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊँगा  
और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उस के  
चारों ओर की शहरपनाह और यहूदा के और सब  
नगरों के साम्हने अपना अपना सिंहासन रक्खेंगे। और १६  
उन की सारी बुराई के कारण मैं उन पर दण्ड होने की  
आज्ञा दूँगा इसलिये कि उन्होंने ने मुझ को त्यागकर  
दूसरे देवताओं के लिये धूप जलाया और अपनी बानई  
हुई वस्तुओं को दण्डवत् किया है। सो तू कमर कसकर १७  
उठ और जो कुछ मैं तुझ को कहने की आज्ञा दूँ सो उन  
से कहना तू उन के साम्हने न घबराना ऐसा न हो कि  
मैं तुझ को उन के साम्हने घबरा दूँ। सो सुन मैं ने आज १८  
तुझ को इस सारे देश और यहूदा के राजाओं हाँकमों  
और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला  
नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह  
कर दिया है। वे तुझ से लड़ेंगे तो सही पर तुझ पर १९  
प्रबल न होंगे क्योंकि मैं वचाने के लिये तेरे संग हूँ  
यहोवा की यही वाणी है ॥

२. फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास  
पहुँचा कि, जाकर यरूशलेम को २  
पुकार के यह सुना दे कि यहोवा का यह वचन है कि  
तेरे विषय तेरा जवानी क स्नेह और तेरे विवाह के  
समय का प्रेम मुझे स्मरण आते हैं कि तू जंगल में  
जहां भूमि जोती बाँई न थी वहां मेरे पीछे पीछे चली  
आती थी। इसलिये यहोवा की पवित्र वस्तु और उस ३  
की पहली उपज थी जितने उसे खाते थे सो दोषी ठहरते  
और विपत्ति में पड़ते थे यहोवा की यही वाणी है ॥

हे याकूब के घराने हे इस्राएल के घराने के सारे ४  
कुलों के लोगो यहोवा का वचन सुनो, यहोवा ने यो ५  
कहा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन ऐसी  
कुटिलता पाई कि वे मेरी ओर से हट गये और निकम्मी  
वस्तुओं के पीछे होकर आप भी निकम्मे हो गये। उन्हों ६

ने इतना भी न कहा कि यहोवा जो हम को मिस्र देश से ले आया और जंगल में और रेत और मड़हों से मरे हुए निर्जल और बोर बंधकार के देश में जिस से होकर कोई नहीं चलता और जिस में कोई मनुष्य नहीं रहता ऐसे देश में जो हम को ले चला वह ७ कहां है। मैं तो तुम को इस उपजाऊ देश में ले आया कि उस का फल और उत्तम उपज खाओ पर तुम ने मेरे इस देश में आकर इस को अशुद्ध किया और मेरे ८ इस निज भाग को धिनौना कर दिया। याजक भी न पूछते थे कि यहोवा कहां है और जो व्यवस्था से काम रखते थे वे मुझ को जानते न थे फिर चरवाहों ने मुझ से बलवा किया और नबियों ने बाल देवता के नाम से नबूवत की और निष्फल बातों के पीछे चले थे। ९ इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं फिर तुम्हारा मुकद्दमा चलाऊंगा और तुम्हारे बेटे १० पोतों का भी चलाऊंगा। किस्तियों के द्वीपों में पार उतरके देखो और केदार में दूत भेजकर भली भांति विचारो और देखो कि ऐसा काम कहीं हुआ है कि ११ नहीं। क्या किसी जाति ने अपने देवताओं का जो परमेश्वर नहीं हैं बदल दिया पर मेरी प्रजा ने अपनी १२ महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। यहोवा की यह वाणी है कि इस कारण चाहिये या कि आकाश चकित होता और बहुत ही थरथरता और बहुत सुल १३ भी जाता। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयों की हैं उन्होंने ने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने ने हौद बना लिये वरन ऐसे हौद जो फट १४ गये हैं और उन में जल नहीं धरता। क्या इस्राएल दास है क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर १५ वह क्यों लूटा गया है। जबान तिंहों ने उस के विरुद्ध गरजकर नाद किया उन्होंने ने उस के देश को उजाड़ दिया और उस के नगरों को ऐसा फूंक दिया कि उन १६ में कोई नहीं रह गया। और नोप और तहपन्हेस के १७ निवासी तेरे देश की उपज चट कर गये हैं। क्या यह तेरी ही करनी का फल नहीं क्योंकि जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें मार्ग में लिये चलता था तब तू १८ ने उस को छोड़ दिया। और अब तुम्हें मिस्र के मार्ग से क्या काम है कि तू सीहोर<sup>५</sup> का जल पीए और तुम्हें अश्शर के मार्ग से भी क्या काम कि तू महानद

(१) मूल में इस कारण हे आकाश चकित हो रोमांचित हो और बहुत सुल जा। (२) या क्या इस्राएल दास है क्या वह घर में उत्पन्न हुआ। (३) मूल में तेरा ब्योवडा। (४) अर्थात् नील नदी।

का जल पीए। तेरी बुराई के कारण तेरी ताड़ना होगी १९ और हट जाने से तू डांटी जाती है सो निश्चय करके देख कि तू ने जो अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और तुम्हें मेरा भय नहीं रहा सो बुरी और कड़वी बात है प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मैं ने तो २० कब ही तेरा जूआ तोड़ डाला और तेरे बन्धन खोले पर तू ने कहा कि मैं सेवा न करूंगी और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के तले तू व्यभिचारन का सा काम करती रही। मैं ने तो तुम्हें उत्तम जाति २१ की दाखलता और सच्चाई का बीज करके रोपा<sup>६</sup> फिर तू क्यों मेरे देखने में पराये देश की निकम्मी दाखलता की शाखाए बन गई है। चाहे तू अपने को सजी से २२ धोए और बहुत सा साबुन भी काम में ले आए तौभी तेरे अधर्म का दाग मेरे साम्हने पक्का बना रहेगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तू क्योंकर कह सकती २३ है कि मैं अशुद्ध नहीं मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली तू तराई में की अमनी चाल देख और जान कि तू ने क्या किया है। तू वेग से चलनेहारी और इधर उधर फिरनेहारी सांडनी है, जंगल में पली हुई और २४ कामातुर होकर वायु संचनेहारी बनेली गदही जब काम के बश होती तब कौन उस को लौटा सकता है जितने उस को दूँदेंगे सो व्यर्थ परिश्रम न करेंगे क्योंकि वे उस को उस के श्रुतु में<sup>६</sup> पाएंगे। तू नंगे पांव और गला सुखाये २५ न रह। पर तू ने कहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है सो उन के पीछे चलती रहूंगी। जैसा चोर पकड़े जाने पर २६ लजित होता है वैसा ही इस्राएल का घराना राजाओं हाकिमों याजकों और नबियों समेत लजित होता है। वे काठ से कहते हैं कि तू मेरा बाप है और पत्थर से २७ कहते हैं कि तू मुझे जनी है इस प्रकार उन्होंने ने मेरी और मुंह नहीं पीठ ही फेरी है। पर विपत्ति के समय वे कहेंगे कि उठकर हमें बचा। पर जो देवता तू ने बना २८ लिये हैं सो कहां रहे क्योंकि हे यहूदा तेरे देवता तेरे नगरों के बराबर बहुत हैं यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुम्हें बचा सकते हैं तो अभी उठें ॥

तुम मेरे संग क्यों वादविवाद करोगे तुम २९ सभो ने मुझ से बलवा किया है यहोवा की यही वाणी है। मैं ने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों को दुःख ३० दिया उन्होंने ने ताड़ना से भी नहीं माना तुम ने अपने नबियों को अपनी तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा

(५) मूल में मैं ने तुम्हें उत्तम जाति की दाखलता बिल्कुल सच्चा बीज लगाया। (६) मूल में अपने महाने में।

- ३२ सिंह नाश करता है । हे इस समय के लोगो यहोवा के इस वचन को सोचो कि क्या मैं इस्राएल के लिये जंगल वा घोर अंधकार का देश बना हूँ मेरी प्रजा क्यों कहती है कि हम जो छोटे हैं सो तरे पास फिर न आएंगे ।
- ३२ क्या कुमार अपने सिंगार वा दुल्हन अगना पट्टका भूल सकती तौभी मेरी प्रजा ने मुझे अनगिनत दिनों से बिस्तरा दिया है । प्रेम लगाने के लिये तू कैसी सुन्दर चाल चलती है तू ने बुरी जियों को भी अपनी सी चाल सिखाई है । फिर तेरे बाँधने में निर्दोष दरिद्र लोगों के लोहू का चिन्ह पाया जाता है तू ने उन्हें सँघ मारते नहीं पाया पर इन सब के कारण उन्हें बंध किया ।
- ३५ तौभी तू कहती है कि मैं तो निर्दोष हूँ निश्चय उस का कोप मुझ पर से उतरा होगा सुन तू जो कहती है कि मैं ने पाप नहीं किया इसलिये मैं तुझ से ३६ मुकद्दमा लड़ूंगा । तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिये इतनी डाँवाडोल फिरती है जैसे अशूरियों से तेरी ३७ आशा टूटी वैसे ही मस्त्रियों से भी टूटेगी । वहाँ से भी तू सिर पर हाथ रक्खे हुए यों ही चली आएगी क्योंकि जिन पर तू ने भरोसा रक्खा है यहोवा ने उन को निकम्मा ठहराया है और तेरा प्रयोजन उन के कारण सफल न होगा ॥

### ३. कहते हैं कि यदि कोई अपनी स्त्री को

- त्याग दे और वह उस के पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो क्या वह उस के पास फिर लौटेगा क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा । यहोवा की यह वाणी है कि तू ने बहुत से यारों के साथ व्यभिचार तो किया है तौभी तू मेरे पास फिर आ ।
- २ मुण्डे टीलों की ओर आँखें उठाकर देख कि ऐसा कौन स्थान है जहां तू ने कुकर्म न किया हो मार्गों में तू ऐसी बैठी हुई थी जैसे अरबी जंगल में और तू ने अपने देश के व्यभिचार आदि बुराइयों से अशुद्ध किया है । इसी कारण झड़ियाँ और बरसात की पिछली वर्षा नहीं हुई इस पर भी तेरा माया वेश्या का सा है तू ४ लजाना जानती ही नहीं । क्या तू अब से मुझे पुकारके न कहने लगेगी कि हे मेरे पिता तू ही मेरी जवानों का ५ रखवाला है । क्या वह मन में सदा क्रोध रक्खे रहेगा क्या वह उस के सदा बनाये रहेगा । तू ने ऐसा कहा तो है पर बुरे काम प्रबलता के साथ किये हैं ॥
- ६ फिर योशियाह राजा के दिनों में यहोवा ने

(१) मूल में तुम्हारी तलवार ने नाराक को नाश ।

(२) मूल में लजाने का नकार ।

- मुझ से यह भी कहा कि क्या तू ने देखा है कि संग छोड़नेहारी इस्राएल ने क्या किया है उन से तो सब ऊचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के तले जा जाकर व्यभिचार किया है । और जब वह ये सब काम कर चुका थी जब मैं ने कहा यह मेरी ओर फिरेगी पर वह न फिरी और उस की विश्वासघातिन बहिन यहूदा ने यह देखा । फिर मैं ने देखा कि जब मैं ने संग छोड़नेहारी इस्राएल को उस के व्यभिचार करने के कारण त्यागकर त्यागपत्र दिया तब उस की विश्वासघातिन बहिन यहूदा न डरी धरन जाकर आप मां व्यभिचारिन बनी । और उस के निर्लज्ज व्यभिचारिण होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया और उस ने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया था । इतने पर भी उस की विश्वासघातिन बहिन यहूदा सारे मन से नहीं पर काट से मेरी ओर फिरी यहोवा की यही वाणी है । और यहोवा ने मुझ से कहा संग छोड़नेहारी इस्राएल विश्वासघातिन यहूदा से कम दोषी निकली है । तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार के कह कि यहोवा की यह वाणी है कि हे संग छोड़नेहारी इस्राएल लौट आ तब मैं तुझ पर कोप की दृष्टि न रक्खूंगा क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं कब्यामय हूँ, मैं सदा लों क्रोध रक्खे न रहूंगा । यहोवा की यह वाणी है कि केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई मेरी नहीं पुनी । यहोवा की यह वाणी है कि हे संग छोड़नेहारे लड़का लौट आओ क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और मैं तुम्हारे नगर पीछे एक और कुल पीछे दो लेकर सिन्धोन में पहुँचा दूंगा । और मैं तुम्हारे ऊपर अपने मन के अनुसार चरवाहे ठहराऊंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे । और यहोवा की यह भी वाणी है कि उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ोगे और फूलो फलोगे तब लोग फिर यहोवा की वाचा का संदूक ऐसा न कहेंगे और न वह सुधि वा स्मरण में आएगा न लोग उस के न रहने से चिन्ता करेंगे और न वह फिर से बनाया जाएगा । उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहाएगी और सब जातियाँ उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निर्मित इकट्ठी हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेंगी । उन दिनों में यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैं ने उन के पितरों को निज भाग करके दिया था । पर मैं ने सोचा कि मैं

तुम्हें क्योंकि लड़कों में गिनकर वह मनभावना देश जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है दे सकता हूँ तब मैं ने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मेरे पीछे हो लेना न छोड़ेगी । इस में तो सन्देह नहीं कि जैसे खी अपने प्रिय से फिर जाती है वैसे हो हे इस्राएल के घराने तू मुझ से फिर गया है यहोवा की यही वाणी है ।

२१ मुँडे टीलों पर से इस्राएलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई देता है क्योंकि वे टेढ़ी चाल चले और

२२ अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गये हैं । हे संग छोड़ने-हारे लड़के लौट आओ मैं तुम्हारा संग छोड़ना दूर करूँगा । देख हम तेरे पास आये हैं क्योंकि तू हमारा

२३ परमेश्वर यहोवा है । निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर जो केलाहल होता है सो व्यर्थ ही है निश्चय इस्राएल का उद्धार हमारे परमेश्वर यहोवा ही से है । वह आशा तोड़नेहारी वस्तु हमारे बचपन से हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात् उन की मेड़ बकरी और गाय बैल और

२४ उन के बेटे बेटियों को भी खाती आई है । हम लज्जा के साथ लोट जाएँ और हमारा संकेच हमारी ओढ़नी बने क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी बचपन से लेकर आज के दिन लो अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आये हैं और अपने परमेश्वर यहोवा की बात हम ने नहीं मानी ॥

### ४. यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल

यदि तू फिरना चाहता है तो मेरी ओर फिर और यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे साम्हने से दूर करे तो तुम्हें मारा मारा फिरना न पड़ेगा ।

२ और तू सबाई और म्याय और धर्मे से यहोवा के जीवन की किरिया खाएगा और अन्यजातियाँ अपने अपने को उसी के कारण धन्य गिनेंगी और उसी के विषय बढ़ाई मारेंगी ॥

३ फिर यहोवा ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यों कहा कि अपनी पड़ती भूमि में हल जोता और कटीले

४ झाड़ों के बीच में बीज मत बोओ । हे यहूदा के लोगो और यरूशलेम के निवासियों यहोवा के लिये अपना खतना करो और अपने मन की खलड़ी दूर करो नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा कोप आग की नाई भड़केगा और ऐसा जलता रहेगा कि कोई उसे बुझा न

५ सकेगा । सुथहूदा में यह प्रचार करो और यरूशलेम नगर में यह नाओ कि देश भर में नरसिंहा फूँके

और गला खोलकर वह पुकारे कि आओ हम इकट्ठे हों और गढ़वाले नगरों में जाएँ । सिव्योन के मार्ग में अँडा खड़ा करो अपना सामान बटोर के भागो खड़े मत रहे क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया चाहता हूँ । सिंह अपनी झाड़ी से निकला अर्थात् जाति जाति का नाश करनेहारा चढ़ाई करके आ रहा है वह तो कूच करके अपने स्थान से इशलिये निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसे सने कर दे कि उन में कोई भी न रह जाए । इस कारण कमर में टाट बांधो विलाप और हाय हाय करो क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से नहीं उतरा । और यहोवा की यह भी वाणी है कि उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा और याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे ॥

तब मैं ने कहा हाय प्रभु यहोवा तू ने तो यह कह कर कि तुम को शांति मिलेगी निश्चय अग्नी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बढ़ा धोखा दिया है क्योंकि तलवार प्राण लों छेदने पर है । उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा कि जंगल में के मुण्डे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लूह बह रही है सो ऐसी वायु नहीं जिस से ओसाना वा फरछाना हो, पर ऐसे कामों के लिये अधिक प्रचण्ड वायु मेरे निमित्त बहेगी अब मैं उन को दण्ड मिलने की आशा दूँगा । देखो वह बादलों की नाई चढ़ाई करके आ रहा है उस के रथ बवण्डर के समान और उस के घोड़े उकाबों से अधिक वेग चलते हैं हम पर हाय कि हम नाश हुए । हे यरूशलेम अपना मन धुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए तुम अनर्थ कल्पनाएँ कब लो करते रहोगे ? क्योंकि दान नगर से शब्द सुन पड़ता है और एप्रैम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार सुनाई देता है । अन्यजातियों में इस की चर्चा करो यरूशलेम के विरुद्ध भी इस का समाचार सुनाओ कि घेरनेहारे दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं । वे खेत के रखवालों की नाई उस के चारों ओर से घे रहे हैं क्योंकि वह मुझ से फिर गई है यहोवा की यही वाणी है । ये तेरी चाल और कामों का फल हैं तेरी यह दुष्टता दुखदाई है कि इस से तेरा हृदय छिद्र जाता है ॥

हाय हाय मेरा हृदय भीतर भीतर लड़पता

(२) मूल में मेरी प्रजा की बेटों की ओर । (३) मूल में कब लो तुम्हें बनी रहेंगी । (४) मूल में पहरप । (५) मूल में मेरी अन्तरियाँ मेरी ।

- और मेरा मन घबराता है मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि  
 हे मेरे जीव नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार  
 २० तुम लो पहुँची है । नाश पर नाश का समाचार आता  
 है अब सारा देश लूटा गया है मेरे डेरे अचानक और  
 २१ मेरे तम्बू एकएक लूटे गये हैं । मुझे और कितने  
 दिन लो उन का भयबा देखना और नरसिंगे का शब्द  
 २२ सुनना पड़ेगा । क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है वे मुझ को  
 नहीं जानते वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं कि उन को कुछ भी  
 समझ नहीं है बुराई करने का तो वे बुद्धिमान हैं पर  
 भलाई करना नहीं जानते ॥
- २३ मैं ने पृथिवी को देखा कि वह सुनी और सुनसान  
 पड़ी है और आकाश को कि उस में ज्योति नहीं रही ।  
 २४ मैं ने पहाड़ों को देखा कि वे हिल रहे और सब  
 २५ पहाड़ियों को कि वे डोल रही हैं । फिर मैं क्या देखता  
 हूँ कि कोई मनुष्य नहीं रहा सब पच्ची भी उड़ गये हैं ।  
 २६ फिर मैं क्या देखता हूँ कि उपजाऊ देश जङ्गल और  
 यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए केप के कारण  
 २७ उस के सारे नगर खंडहर हो गये हैं । क्योंकि यहोवा  
 ने यह बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा तौभी  
 २८ मैं उस का अन्त न कर डालूँगा । इस कारण पृथिवी  
 विलाप करेगी और आकाश शोक का काला बख  
 पहिनेगा क्योंकि मैं ने ऐसा ही करना ठाना और कहा  
 भी है और इस से नहीं पछुताया और न अपने प्रण  
 को छोड़ूँगा ॥
- २९ इस सारे नगर के लोग सवारों और धनुर्धारियों  
 का कोलाहल सुनकर भाग जाते हैं वे भ्राड़ियों में घुस  
 जाते और चटानों पर चढ़ जाते हैं सब नगर निर्जन हो  
 ३० गये और उन में कोई न रहा । तू जब उजड़ेगी तब क्या  
 करेगी चाहे तू लाही रङ्ग के बख पहिने और सोने के  
 आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन  
 लगाए पर तू व्यर्थ ही अग्ना सिंगार करेगी क्योंकि तेरे  
 यार तुझे निकम्मी जानते और तेरे प्राण के खोजी हैं ।  
 ३१ मैं ने जननेहारी का सा शब्द पहिलौठा जनती हुई स्त्री  
 की सी चिल्लाहट सुनी है यह सिय्योन की बेटा का शब्द  
 है वह हाँफती और हाथ फैलाये हुए यों कहती है कि हाथ  
 मुझ पर मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्च्छित हो चली हूँ ॥

### ५. यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर

दौड़कर देखो और उस के  
 चौकों में दूढ़ो यदि ऐसा कोई मिल सकता है जो न्याय  
 से काम करे और सच्चाई का खोजी हो तो मैं उस का  
 २ पाप क्षमा करूँगा । यद्यपि उस के निवासी यहोवा के

जीवन की सी ऐसा कहते हैं तौभी निश्चय वे झूठी  
 किरिया खाते हैं ॥

हे यहोवा क्या तू सच्चाई पर दृष्टि नहीं लगाता तू ३  
 ने उन को दुःख दिया पर वे शोकित नहीं हुए तू ने  
 उन को नाश किया पर उन्होंने ने ताड़ना से नहीं माना  
 उन्होंने ने अपना मन चटान से भी अधिक कड़ा किया  
 और फिरने को नकारा है । फिर मैं ने सोचा कि ये लोग ४  
 तो कङ्काल और अबोध हैं ये यहोवा का मार्ग और अपने  
 परमेश्वर का नियम नहीं जानते । सो मैं बड़े लोगों के ५  
 पास जाकर उन को सुनाऊँगा क्योंकि वे तो यहोवा का  
 मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते होंगे पर  
 उन्होंने ने मिलकर जूए को तोड़ दिया और बन्धनों के  
 खोल डाला है ॥

इस कारण सिंह वन में से आकर उन्हें मार डालेगा ६  
 और निर्जल देश का भेड़िया उन को नाश करेगा और  
 चीता उन के नगरों के पास घात लगाये रहेगा और  
 जो कोई इन से निकले सो फाड़ा जाएगा इस कारण से  
 कि उन के अपराध बढ़ गये और वे मुझ से बहुत ही  
 दूर हट गये हैं । मैं किस प्रकार से तेरा पाप क्षमा करू ७  
 तेरे लोगों ने मुझ को छोड़कर उन की किरिया खाई  
 है जो परमेश्वर नहीं हैं और जब मैं ने उन का पेट भर  
 दिया तब उन्होंने ने ब्याभिचार किया और वेश्याओं के ८  
 घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे । वे विलाये हुए और  
 घूमते फिरते घोड़ों के समान हुए वे अपने अपने पड़ोसी ९  
 की स्त्री के लिये दिनदिनाने लगे । यहोवा की यह वरणी ९  
 है कि क्या मैं ऐसे कामों का दण्ड न दूँ क्या मैं ऐसी  
 जाति से अपना पलटा न लूँ । शहरपनाह पर चढ़ाई १०  
 करके नाश तो करो तौभी उस का अन्त मत कर डालो  
 उस की जड़ तो रहने दो पर उस की ढालियों को तोड़  
 कर फेंक दो क्योंकि वे यहोवा की नहीं हैं । यहोवा की ११  
 यह वाणी है कि इस्राएल और यहूदा के घरानों ने मुझ  
 से बढ़ा ही विश्वासघात किया है । उन्होंने ने यहोवा की १२  
 बातें झुठलाकर कहा कि यह वह नहीं है विपत्ति हम  
 पर न पड़ेगी और हम न तो तलवार को और न महंगी १३  
 को देखेंगे । और नबी हवा हो जाएंगे और उन में १४  
 ईश्वर का वचन नहीं सो उन के साथ ऐसा ही किया  
 जाएगा । इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यों १५  
 कहता है कि ये लोग जो ऐसा कहते हैं इस लिये देख  
 मैं अपने वचन तेरे मुँह में आग और यह प्रजा काठ  
 बनाता हूँ और वह उन्हें त्राएगी । यहोवा की यह १६

बाणी है कि हे इस्राएल के घराने सुन मैं तुम्हारे विरुद्ध  
दूर से ऐसी जाति की चढ़ाई कराऊंगा जो सामर्थ्य  
और प्राचीन जाति है और उसकी भाषा तुम न  
समझोगे और न जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे  
१६ हैं। उनका तर्कसखुली कबर सा है और वे सब के  
१७ सब शूरवीर हैं। वे तुम्हारे पक्के खेत और भोजनवस्तुए  
खा जाएंगे जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिये  
होनीं वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बलों को खा  
डालेंगे वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे  
और जिन गढ़वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो  
१८ उन्हें वे तलवार के बल से गिरा देंगे। तौमी यहोवा  
की यह बाणी है कि उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अन्त  
१९ न कर डालूंगा। सो जब तुम पूछोगे कि हमारे परमेश्वर  
यहोवा ने हम से ये सब काम किस के पलटे में  
किये हैं तब तू उन से कहना कि जिस प्रकार से तुम  
ने मुझ को त्यागकर दूसरे देवताओं की सेवा अपने  
देश में की है उसी प्रकार से तुम को पराये देश में  
परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी ॥

२० याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में  
२१ यह सुनाओ, हे मूल और निर्बन्दि लोगो तुम जो आँखें  
रहते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए नहीं सुनते  
२२ यह सुनो। यहोवा की यह बाणी है कि क्या तुम लोग  
मेरा भय नहीं मानते मैं ने तो बाल के समुद्र का  
सिबाना उहराकर युग युग का ऐसा विधान किया कि  
वह उस को न लावे जब जब उस का सहर्ष उठे तब  
तब वे प्रबल न होएँ और जब जब गरजें तब तब वे उस  
को न लायें फिर क्या तुम मेरे साम्हने नहीं धरधरते।  
२३ पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करनेहारा मन है वे  
२४ हठ करके चले गये हैं। फिर वे मन में इतना भी नहीं  
सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आदि  
और अन्त दोनों समयों का जल समय पर बरसाता  
और कटनी के नियत अठवारे हमारे लिये रखता है सो  
२५ हम उस का भय मानें। पर वे तुम्हारे अधर्म के कामों  
ही के कारण रुक गये और तुम्हारे पापों के हेतु तुम्हारी  
२६ भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग भी पाये  
जाते हैं जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी  
घात लगाये रहते हैं वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अग्ने  
२७ बश में कर लेते हैं। जैसा पित्रग चिड़ियाओं से भरा  
पूरा होता है वैसे ही उन के घर छल से भरे पूरे रहते हैं  
२८ इसी प्रकार से वे बढ़ गये और धनी हो गये हैं। वे मोटे

(१) मूल में तुम्हारे अधर्मों ने इन्हें मोका और तुम्हारे पापों ने  
भलाई तुम से रोकी।

चिकने हो गये हैं वे बुरे कामों में सीमा को लांघ गये  
हैं वे न्याय और विशेष करके बपमूओं का न्याय नहीं  
चुकाते इससे उनका काम सफल नहीं होता फिर वे  
कंगालों का हक नहीं दिलाते। सो यहोवा की यह २९  
बाणी है कि क्या मैं इन बातों का दण्ड न दूँ क्या मैं  
ऐसी जाति से पलटा न लूँ ॥

देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और ३०  
रामांचित होना चाहिये। नबी तो झूठमूठ नबूवत करते ३१  
हैं और याजक उन के सहारे से प्रभुता करते हैं और  
मेरी प्रजा को यह भावता भी है सो इस के अन्त में  
तुम भया करोगे ॥

६. हे विन्यामीनियो यरूशलेम में से अपना  
अपना सामान लेकर भागो और तको  
में नरसिंगा फूँको और बेथकनेरैम पर झरडा खड़ा करो  
क्योंकि उत्तर की दिशा से आनेहारी विपत्ति और बड़ा  
बिगाड़ दिखाई देता है। सुन्दर और सुकुमार सिन्धोन २  
को मैं नाश करने पर हूँ। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ ३  
बकरियां संग लिये हुए उस पर चढ़कर उस के चारों  
ओर अपने तंबू खड़े करेंगे और अपने अपने पास को घास ४  
चरा लेंगे। आओ उस के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो ५  
उठो हम दोपहर को चढ़ाई करें हाथ हाथ दिन ढलने  
लगा और सांभ की परछाई लम्बी हो चली है। उठो ५  
हम रात ही रात चढ़ाई करें और उस के महलों को  
नाश करें। सेनाओं का यहोवा तुम से कहता है कि ६  
वृक्ष काट काटकर यरूशलेम के विरुद्ध धुस बांधो यह  
वही नगर है जिसका दण्ड हुआ चाहता इसमें अन्धेर ७  
ही अन्धेर भरा हुआ है। जैसा कूप में से नित्य नया ७  
जल निकला करता है वैसे ही इस नगर में नित्य नई  
बुराई निकलती है इसमें उत्पात और उपद्रव का  
कालाहल मचा करता है चोट और मारपीट मेरे देखने  
में निरन्तर आती है। हे यरूशलेम ताड़ना से मान ले ८  
नहीं तो तू मेरे जीव से उतर जाएगी और मैं तुझ को  
उजाड़कर निर्जन कर डालूंगा। सेनाओं का यहोवा यों ९  
कहता है कि दाखलता की नाई इस्राएल के बचे हुए  
सब तोड़े जाएंगे दाख के तोड़नेहारे की नाई उस लता  
की डालियों पर फिर फिर हाथ लगा ॥

मैं किस से बोलूँ और चिताकर कहूँ कि वह १०  
माने। देख वे अँचा सुनते हैं और ध्यान भी नहीं दे  
सकते देख वे यहोवा के वचन की निन्दा करते और  
उस को नहीं चाहते। इस कारण यहोवा का कोप मेरे ११

(१) मूल में उनका कान खतनारहित है।

मन में भर दिया गया और मैं उसे रोकते रोकते उकता गया, उसे सड़क पर के बच्चों और जवानों की सभा में मड़का<sup>१</sup> दे क्योंकि ली पुरुष अघेड़ बूढ़ा सब के सब पकड़े जाएंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि उन लोगों के घर और खेत और खियां सब औरों की हो जाएंगी क्योंकि मैं इस देश के रहनेहारों पर हाथ बढ़ा-  
 १२ जंगा। क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं और क्या नबी क्या याजक वे सब के सब छल से काम करते हैं। और उन्होंने शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा<sup>२</sup> के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा  
 १३ किया पर शांति कुछ भी नहीं। क्या व घिनौना काम करके लजा गये नहीं वे कुछ भी नहीं लजाये वे लजाना जानते ही नहीं इस कारण जब और लोग नीचा खाएंगे तब वे भी नीचा खाएंगे और जब मैं उन को दण्ड देने लगूँ तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे यहोवा का यही वचन है ॥

१४ यहोवा यों भी कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने ने कहा हम न चलेंगे।  
 १५ फिर मैं ने तुम्हारे लिये पहरेदार बैठाकर कहा है नरसिंग का शब्द ध्यान से सुनो। पर उन्होंने ने कहा है हम न सुनेंगे। इस लिये हे अन्यजातियो सुनो और हे मण्डली  
 १६ देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथिवी सुन और देख कि मैं इस जाति पर वह विपात्त ले आऊंगा जो उन का कल्पनाओं का फल है क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिये लोबान जो शवा से और सुगन्धित नरकट जो दूर देश से आता है इस का क्या प्रयोजन है तुम्हारे होमबलियों से मैं प्रसन्न नहीं होता और न तुम्हारे मेलबलि मुझे माँठे लगते हैं।  
 १७ इस कारण यहोवा ने यों कहा कि सुनो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रक्खूंगा और थाप बेटा पड़ासी और संगी वे सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे ॥

१८ यहोवा यों कहता है कि देखो उत्तर से बरन पृथिवी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश पर उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किये आएंगे वे क्रूर और निर्दय हैं और जब वे बोलते तब मानो समुद्र गरजता है वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे हे सियोन<sup>३</sup> वे वीर की नाई हथियारबन्द होकर<sup>४</sup> तुम्हें

(१) मूल में उगडेल। (२) मूल में मेरी प्रजा की पुत्री। (३) मूल में हे सियोन की बेटा। (४) मूल में जैसा युद्ध के लिये पुरुष।

पर चढ़ाई करेंगे। इस का समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गये हैं हम संकट में पड़े हैं जननेहारी की सी पीड़ हम को उठी है। मैदान में मत निकल जाओ मार्ग में भी न चलो क्योंकि वहाँ शत्रु की तलवार और चारों ओर भय देख पड़ा है। सो हे मेरी प्रजा<sup>५</sup> कमर में टाट बांध और राख में लोट जैसा विलाप एकलौते पुत्र के लिये होता है वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर क्योंकि नाश करनेहारा हम पर अचानक आ पड़ेगा ॥

मैं ने तुम्हें को अपनी प्रजा के बीच गुम्मत वा गढ़ इस लिये ठहरा दिया कि तू उन की चाल परखे और जान ले। वे सब बहुत ही हठीले हैं वे छुतराई करते फिरते हैं उन सबों की चाल किंगड़ी है वे निरा ताम्बा और लोहा ही निकलते हैं। धौंकनी जल गई शीशा आग में जल गया सो ढालनेहारे ने व्यर्थ ही ढाला है बुर लोग निकाले नहीं गये। उन का नाम खोटी चाँदी पड़ेगा क्योंकि यहोवा ने उन को खोटा पाया है ॥

## ७ जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह

के पास पहुंचा सो यह है कि, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो यह वचन प्रचारके कह कि हे सब यहूदियो तुम जो यहोवा को दण्डवत् करने के लिये इन फाटकों से प्रवेश करते हो सो यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यों कहता है कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो तब मैं तुम को इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यह जो तुम लोग कहा करते हो कि झूठी बातों पर भरोसा रखकर मत कहो कि यहोवा का मन्दिर यह है यहोवा का मन्दिर यहोवा का मन्दिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, और परदेशी और बपमूए और विधवा पर अंधेर न करो और इस स्थान में निर्दोष का खून न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिस से तुम्हारी हानि होती है, मैं तो तुम को इस नगर में और इस देश में जो मैं ने तुम्हारे पितरों वा दिया युगयुग से रहने दूंगा। सुनो तुम झूठी बातों पर जिन से कुछ लाभ नहीं हो सकता भरोसा रखते हो। तुम जो चोरी हत्या और व्यभिचार करते और झूठी किरिया खाते और बाल देवता के लिये धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहिले न जानते थे चलते हो, सो क्या उचित है कि

(५) मूल में प्रजा की पुत्री।



तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहावता है और मेरे  
 साम्हने खड़े होकर कहो कि हम इस लिये छूट गये हैं कि  
 ११ ये सब चिन्तोंने काम करें। क्या यह भवन जो हमारा  
 कहावता है तुम्हारे लेखे डाकुओं की गुफा हो गया है मैं  
 १२ ही ने यह देखा है यहोवा की यही वाणी है। मेरा जो  
 स्थान शीलो में था जहां मैं ने पहिले अपने नाम का  
 निवास ठहराया था वहां जाकर देखो कि मैं ने अपनी प्रजा  
 इस्राएल की बुराई के कारण उस की क्या दशा कर दी  
 १३ है। सो अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम तो ये सब  
 काम करते आये हो और यद्यपि मैं तुम से बातें करता  
 आया हूं वरन बड़े यत्न से<sup>२</sup> कहता आया हूं पर तुम ने  
 १४ नहीं सुना और यद्यपि मैं तुम्हें बुलाता आया हूं पर तुम  
 पर तुम भरोसा रखते हो और यह स्थान जो मैं ने तुम को  
 और तुम्हारे पितरों को दिया इन की दशा मैं शीलो की  
 १५ सी कर दूंगा। और जैसा मैं ने तुम्हारे सब भाइयों को  
 अर्थात् सारे एशैमियों को अपने साम्हने से दूर कर दिया  
 है वैसा ही तुम को भी दूर कर दूंगा ॥

१६ तू इस प्रजा के लिये प्रार्थना मत कर न तो इन  
 लोगों के लिये ऊंचे स्वर से प्रार्थना कर न मुझ से बिनती  
 १७ कर क्योंकि मैं तेरी न सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि  
 ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में  
 १८ क्या करते हैं। देख लड़के बाले तो ईषन बटोरते और  
 बाप भाग बारते और स्त्रियां आटा गूंधती हैं कि मुझे  
 रिसियाने का स्वर्ग का रानी के लिये रोटियां चढ़ाएँ और  
 १९ दूसरे देवताओं के लिये तपावन दे। यहोवा की यह वाणी  
 है कि क्या वे मुझों को रिस दिलाते हैं क्या वे अपने ही  
 २० को नहीं जिस से उन के मुंह पर सियाही छाप। सो  
 प्रभु यहोवा ने यों कहा है कि क्या मनुष्य क्या पशु  
 क्या मैदान के वृक्ष क्या भूमि की उपज उन सब पर जो  
 इस स्थान में है मेरी कोप की आग भड़कने पर है और  
 जलती भी रहेगी और कभी न बुझेगी ॥

२१ सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है  
 यों कहता है कि अपन मेलबलिया में अपने होमबलि  
 २२ बढ़ाओ और मांस खाओ। क्योंकि जिस समय मैं  
 तुम्हारे पितरों को मिस्र देश में से निकाल ले आया  
 उस समय मैं ने उन से होमबलि और मेलबलि के विषय  
 २३ कुछ आज्ञा न दी। मैं ने तो उन को यही आज्ञा दी  
 कि मेरी सुना करो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और  
 तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और जिस किसी मार्ग की मैं तुम्हें  
 २४ आज्ञा दूँ उसी में चलो तब तुम्हारा भला होगा। पर

(१) मूल में तड़के उठकर ।

उन्होंने मेरी न सुनी और न कान लगाया वे अपनी ही  
 युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और  
 आगे न बढ़े पर पीछे हट गये। जिस दिन तुम्हारे पुरखा २५  
 मिस्र देश से निकले उस दिन से आज लों मैं तो अपने  
 सारे दास नबियों को तुम्हारे पास लगातार बड़े यत्न  
 से भेजता आया हूं। पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी न २६  
 कान लगाया उन्होंने ने हठ की और अपने पुरखाओं  
 से बढ़कर बुराई की है ॥

यह सब बात उन से कह तो सही पर वे तेरी न २७  
 सुनेंगे और उन को बुला तो सही पर वे न बोलेंगे।  
 तब तू उन से कहना कि यह वहां जाति है जो अपने २८  
 परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं  
 मानती सच्चाई नाश हो गई और उन के मुंह से दूर रही ॥

अपने बाल मुंडाकर फेंक दे और मुगड़े टीलों पर २९  
 चढ़कर बिलाप का गीत गा क्योंकि यहोवा ने इस समय  
 के निवासियों पर कोप किया और उन्हें<sup>२</sup> निकम्मा जान-  
 कर त्याग दिया है। यहोवा की यह वाणी है कि ३०  
 इस का कारण यह है कि यहूदियों ने वह किया है जो  
 मेरे लेखे बुरा है जो भवन मेरा कहावता है उस में भी  
 उन्होंने ने अपनी चिन्तोंनी वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध  
 किया है। और उन्होंने ने हिन्नोमवस्थियों की तराई ३१  
 में तोबेत नाम ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों  
 को आग में जलाया है जिस की आज्ञा मैं ने कभी  
 नहीं दी और न वह मेरे मन में कभी आया। यहोवा ३२  
 की यह वाणी है कि ऐसे दिन इस लिये आते हैं कि वह  
 तराई फिर न तो तापेत की और न हिन्नोमवस्थी की  
 कहाएगी बात ही की तराई कहाएगी और तोपेत में  
 इतनी कब्रें होंगी कि और स्थान न रहेगा। सो इन ३३  
 लोगों की लोथें आकाश के पाँचुयों और मैदान के  
 जीबजन्तुओं का आहार होंगी और उन का हांकनेहारा  
 कोई न रहेगा। उस समय मैं ऐसा करूंगा कि यहूदा के ३४  
 नगरों और यरूशलेम की सड़कों में न तो हथ और  
 आनन्द का शब्द सुन पड़ेगा और न दुल्हे वा दुल्हिन  
 का क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा ॥

८. यहोवा की यह वाणी है कि उस समय  
 यहूदा के राजाओं हाकिमों  
 याजकों और नबियों और यरूशलेम के और और  
 रहनेहारों की हाँकियां कब्रों में से निकाल कर, सूर्य २  
 चन्द्रमा और आकाश के सारे गण के साम्हने फैलाई  
 जाएंगी क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते और उन्हीं की

(२) मूल में यहोवा ने अपनी जलजलाहट की पीका की ।

सेवा करते और उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं के दरइवत् करते ये और वे न तो डेर की जाएंगी और न कबर में रखी जाएंगी ३ वरन खाद के समान भूमि के ऊपर पड़ी रहेंगी । और इस बुरे कुल में से जो लोग उन सब स्थानों में जिन में मैं उन को बरबस कर दूंगा रह जाएंगे सो जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे सेनाओं के यद्दोवा की यद्दी वाणी है ॥

४ फिर तू उन से यह कह कि यद्दोवा यों कहता है कि जब कोई गिरता तब क्या वह फिर नहीं उठता जब ५ कोई भटक जाता तब क्या वह लौट नहीं आता । फिर क्या कारण है कि ये यक्षशैली लोग सदा अधिक अधिक दूर भटकते जाते हैं वे छुल को नहीं छोड़ते और लौटने को नकारते हैं । मैं ने ध्यान देकर सुना पर ये ठीक नहीं बोलते इन में से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा कि हाय मैं ने क्या किया है जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है वैसे ही इन में से एक एक जन अपनी ७ दौड़ में दौड़ता है । आकाश का लगलगा अपने नियत समयों को जानता है और पियडुकी और यूपवेना और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं पर मेरी प्रजा ८ यद्दोवा का नियम नहीं जानती । तुम क्योंकि कह सकते हो कि हम तो बुद्धिमान हैं यद्दोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे पास है । पर उन के शास्त्रियों ने उस का झूठा ९ विवरण लिखकर उस को झूठा बना दिया है । बुद्धिमान लजित हुए वे विस्मित हुए और पकड़े गये देखो उन्हों ने यद्दोवा के वचन को निकम्मा जाना है सो बुद्धि उन में १० कहां रही । इस कारण मैं उन की स्त्रियों के दूसरे पुरुषों के और उन के खेत दूसरे अधिकारियों के बस कर दूंगा क्योंकि छोटे से लेकर बड़े लों वे सब के सब लालची हैं और क्या नहीं क्या याजक वे सब के सब छुल से काम ११ करते हैं । और उन्हों ने शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के पाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया पर १२ शांति कुछ भी नहीं है । क्या वे विजौना काम करके लजा गये नहीं वे कुछ भी नहीं लजाये वे लजाना जानते ही नहीं इस कारण जब और लोग नीचा जाएंगे तब वे भी नीचा जाएंगे और जब उन के दरइद का समय आएगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे यद्दोवा का यद्दी १३ वचन है । यद्दोवा की यह भी वाणी है कि मैं उन सभी का अन्त कर दूंगा न तो उन की दासलताओं में दास पाई जाएंगी और न अर्जीर के वृक्ष में अर्जीर वरन उन

के पत्ते भी सुल जाएंगे इस प्रकार जो कुछ मैं ने उन्हें दिया है सो उन के पास से जाता रहेगा । हम क्यों बैठे हैं आओ हम चलकर गढवाले नगरों में इकट्ठे भास हों १४ क्योंकि हमारा परमेश्वर यद्दोवा हम को नाश किया चाहता है हम ने जो यद्दोवा के विरुद्ध पाप किया है इस लिये उस ने हम को विष पिलाया है । हम शांति की बात १५ जोहते तो ये पर कुछ कल्याण नहीं मिला और अन्धकी दशा के हो जाने की आशा तो करते ये पर धराना ही पड़ा है । घोड़ों का फुरकना दान से सुन पड़ता है और १६ उन के बलबन्त घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा और उन्हों ने आकर हमारे देश को और जो कुछ उस में है और हमारे नगर को वासियों समेत नाश किया है । क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बीच ऐसे सांप १७ और नाग भेजंगा जिन पर मंत्र न चलेगा और वे तुम को डरेंगे यद्दोवा की यद्दी वाणी है ॥

हाय हाय इस शोक की दशा में मुझे शांति कहां १८ से मिलेगी मेरा हृदय भीतर भीतर तड़पता है । क्योंकि १९ मुझे अपने लोगों की चित्ताहट दूर के देश से सुनाई देती है कि क्या यद्दोवा सिम्योन में नहीं रहा क्या उस का राजा उस में नहीं रहा । उन्हों ने मुझ को अपनी खोदी हुई भूरतों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों रिश दिलाई है । कटनी का समय बीत गया फल तोड़ने २० की श्रद्ध भी बीत गई और हमारा उदार नहीं हुआ । सो अपने लोगों के दुःख से मैं भी दुःखित हुआ मैं २१ शोक का पहिरावा पहिने अति अचंभे में दूबा हूँ । क्या २२ गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं क्या उस में अब कोई वैद्य नहीं यदि है तो मेरे लोगों के पाव क्यों चंगे नहीं हुए ॥

९. भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आँखें आंसुओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिये रोता रहता । भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता क्योंकि वे सब व्यभिचारी और उन का समाज विश्वासपातियों का है । और वे अपनी अपनी जीभ को धनुष की नाई भूठ बोलने के लिये तैयार करते हैं और देश में बलबन्त तो हो गये पर सच्चाई के लिये नहीं वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे

(१) मूल में शास्त्रियों के भूटे कलम ने उस को ।  
(२) मूल में प्रज की बेटी ।

(३) मूल में अपने लोगों की बेटी । (४) मूल में अपने लोगों की बेटी के । (५) मूल में मेरे लोगों की बेटी के । (६) मूल में मेरे लोगों की बेटी के मारे हुएों के ।

- मुझ को जानते ही नहीं यद्दोवा की यही वाणी है ।
- ४ अपने अपने संगी से चौकस रहे और अपने भाई पर भी भरोसा न रखें क्योंकि सब भाई निश्चय अङ्गु
- ५ मारेंगे और सब संगी लुत्तराई करते फिरेंगे । वे एक दूसरे को ठगेंगे और सब नहीं बोलेंगे वे झूठ ही बोलना
- ६ सीखे हैं और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं । तेरा निवास छल के बीच है और छल के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते यद्दोवा की यही वाणी है ॥
- ७ सेनाओं का यद्दोवा यों कहता है कि सुन मैं उन के तगकर परखूंगा क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उन से
- ८ और क्या कर सकता हूँ । पर उन की जीभ काल के तीर सरीखी बेधनेहारी होती है उस से छल की बातें निकलती हैं वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते पर मन ही मन एक दूसरे की घात लगाते हैं ।
- ९ यद्दोवा की यह वाणी है कि क्या मैं ऐसी बातों का दण्ड न दूँ क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूँ ॥
- १० मैं पहाड़ों के लिये रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा और जङ्गल में की चराइयों के लिये विलाप का गीत गाऊंगा क्योंकि वे ऐसे जल गये कि कोई उन से होकर नहीं चलता और उन में टोर का शब्द सुनाई नहीं
- ११ पड़ता पशु पक्षी सब दूर हो गये हैं । और मैं यरूशलेम के डीह ही डीह करके गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि कोई उन में न
- १२ रह जाएगा । जो बुद्धिमान पुरुष हा सो इस का भेद समझ ले और जिस ने यद्दोवा के मुख से इस का कारण सुना हो सो बता दे कि देश क्यों नाश हुआ और क्यों जङ्गल की नाई जल गया और क्या कोई उस से होकर नहीं चलता ॥
- १३ फिर यद्दोवा ने कहा उन्होंने ने तो मेरी व्यवस्था को जो मैं ने उन को सुनवा दी छोड़ दिया और न तो मेरी बात मानी और न उस व्यवस्था के अनुसार चले
- १४ हैं, बरन अपने हठ पर और बाल नाम देवताओं के पीछे
- १५ चले जैसे कि उन के पुरखाओं ने उन को सिखाया । इस कारण सेनाओं का यद्दोवा इस्त्राएल का परमेश्वर यों कहता है कि सुन मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु
- १६ खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा । और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में जिन्हें न तो वे न उन के पुरखा जानते तिसर बिस्तर करूंगा और मेरी ओर से तलवार उन के पीछे पड़ेगी जब तक कि उन का अन्त न ही जाए ॥
- १७ सेनाओं का यद्दोवा यों कहता है कि विलाप करने-

हारियों को सोच विचार के बुलाओ और बुद्धिमान जिन्यों को बुलवा भेजा, कि वे फुर्ती करके हम लोगों के लिये शोक का गीत गाएं कि हमारी आंखों से आंसू बह चलें और हमारी पलक जल बहाएं । सभ्यो न से शोक का यह गीत सुन पड़ता है कि हम क्या ही नाश हो गये हम लज्जा में गड़ गये हैं क्योंकि हम को अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिये गये हैं । सो हे जिन्यों यद्दोवा का यह वचन सुने और उस की यह आज्ञा माने कि तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ । क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में धुस आई कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे । व कह कि यद्दोवा की वाणी यों हुई है कि मनुष्यों की लोथ ऐसी पड़ी रहेगी जैसा खाद खेत के ऊपर और पालयां काटनेहारे के पीछे पड़ी रहती है और उन का कोई उठानेहारा न होगा ॥

यद्दोवा यों कहता है कि न तो बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमण्ड करे और न वीर अपनी वीरता पर न धनवान अपने धन पर घमण्ड करे । पर जो घमण्ड करे सो इसी बात पर घमण्ड करे कि वह मुझ को जानता है और यह समझता है कि यद्दोवा वही है जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता है क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ यद्दोवा की यही वाणी है । सुने यद्दोवा की यह भी वाणी है कि ऐसे दिन आने हारे हैं कि जिन का खतना हुआ है उन के खतनारहित होने के कारण मैं उन्हें दण्ड दूंगा, अर्थात् मिस्रिया यहूदियों एदोमियों अम्मोनियों माआमोनियों और उन अनवासियों को भी जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं क्योंकि सब अन्यजातिवाले तो खतनारहित हैं और इस्त्राएल का सारा घराना मन में खतनारहित है ॥

१०. हे इस्त्राएल के घराने जो वचन यद्दोवा तुम से कहता है सो सुन । यद्दोवा यों कहता है कि अन्यजातियों की चाल मत सीखो और न उन की नाई आकाश के जिन्हां से विस्मित हो उन से तो अन्यजाति के लोग विस्मित होते हैं । और देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं यह मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है कारीगर ने उसे बसुले से बनाया है । लोग उस को सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोंक ठोंककर डढ़ करते हैं कि वह हिल डुल न सके । वे खरादकर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती हैं और बोल नहीं सकतीं उन्हें उठाये फिरना पड़ता है क्योंकि वे नहीं

(१) मूल में उन्होंने ने अपनी जीभ को झूठ बोलना सिखाया है ।

(२) मूल में प्रजा की बेटी ।

- चल सकतीं तुम उन से मत डरो क्योंकि वे न तो कुछ बुरा कर सकती हैं और न कुछ भला ॥
- ६ हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है तू तो महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है । हे सब जातियों के राजा तुझ से कौन न डरेगा क्योंकि तू इस के योग्य है और अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उन के सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है । पर वे पशु सरीखे निरे मूर्ख ही हैं निरुम्मी वस्तुओं की शिक्षा का ठ ही है उन से क्या शिक्षा मिल सकती है । पत्तर बनाई हुई चांदी तर्शाश से लाई जाती है और सोना उपज से क्यारींगर का और सोनार के हाथों का काम उन के पहिरावै नीले और बैजनी रंग के बख्त हैं निदान उन में जो कुछ है सो निषुण्य लोगों का काम है । परन्तु यहोवा सच्चमुच परमेश्वर है जीवता परमेश्वर और सदा का राजा वही है उस के कोप से पृथिवी कांपती और जाति जाति के लोग उस के क्रोध को सह नहीं सकते ॥
- ११ तुम उन से ऐसा कहना कि ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथिवी को नहीं बनाया सो पृथिवी पर से और आकाश के तले से नाश हो जाएंगे ॥
- १२ उस ने पृथिवी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है । जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है वह पृथिवी की छोर से कुहरे उठता और वर्षा के लिये बिजली बनाता और अपने भण्डार में से पवन निकाल ले आता है । सब मनुष्य पशु सरीखे शान रहित हैं सब सोनारों की आशा अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण टूटती है क्योंकि उन की ढाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उन के सांस हैं ही नहीं । वे तो व्यर्थ और ठट्टे ही के योग्य हैं जब उन के नाश किये जाने का समय आएगा तब वे नाश होंगी । पर याकूब का निज भाग उन के समान नहीं है वह तो इस सब का बनानेहारो है और इस्राएल उस के निज भाग का गीज है उस का नाम सेनाओं का यहोवा है ॥
- १७ हे घरे हुए नगर की रहनेहारी अपनी गठरी भूमि पर से उठा । क्योंकि यहोवा यो कहता है कि मैं अब की बेर इस देश के रहनेहारों को मानो गोफन में धके फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे संकट में डालूंगा कि उन को समझ पड़ेगा । मुझ पर हाथ मेरी चोट चंगी होने की नहीं फिर मैं सोचता हूँ कि यह तो मेरा ही

(१) मूल में उन के दण्ड होने के समय

रोग है सो मुझ को इसे सहना ही चाहिये । मेरा तंबू २० लूटा गया और सब रस्सियां टूट गईं मेरे लड़केवाले निकल गये और नहीं मिलते अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनातें खड़ी करे । क्योंकि २१ चरवाहे पशु सरीखे हो गये और यहोवा को नहीं पूछा इस कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उन की सब भेड़ें तित्तर बित्तर हो गई हैं । एक शब्द सुनाई देता है २२ उत्तर की दिशा से बड़ा हुल्लाह मच रहा है वह आ रहा है कि यहूदा के नगरों को उजाड़कर गीदों का स्थान बनाए । हे यहोवा मैं जान गया हूँ कि मनुष्य की गति २३ उस के बश में नहीं रहती मनुष्य चलता तो है पर अपने पैर स्थिर नहीं कर सकता । हे यहोवा मेरी २४ ताड़ना विचार करके कर पर कोप में आकर नहीं ऐसा न हो कि मैं नाश हो जाऊँ । जो जाति तुझे नहीं २५ जानती और जो कुछ तुझ से प्रार्थना नहीं करता उन्हीं पर अपनी जलजलाहट मड़का क्योंकि उन्हीं ने याकूब को निगल लिया बरन खाकर अन्त कर दिया और उस के वासस्थान को उजाड़ दिया है ॥

### ११. यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के

पास पहुंचा कि, इस वाचा के २ वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहनेहारों से बातें करो । और उन से कह इस्राएल ३ का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि स्थापित हो वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जो मैं ने तुम्हारे ४ पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात् मिस्र देश में से निकालने के समय यह कहके बांधी थी कि मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें दूँ उन सभों को मानो तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा । और इस प्रकार जो किरिया मैं ने तुम्हारे ५ पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं सो मैं तुम का दूंगा उस किरिया को पूरी करूंगा । और अब देखो वह पूरी तो हुई है । यह सुनकर मैं ने कहा कि हे यहोवा सत्य वचन है ॥

तब यहोवा ने मुझ से कहा ये सब वचन यहूदा के ६ नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह कि इस वाचा के वचन सुनो और इस के अनुसार काम करो, कि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को ७ मिस्र देश से छुड़ा ले आया आज के दिन लो मैं उन को दबता से चिनाता आया हूँ कि मेरी बात सुनो ।

(२) मूल में तू मुझे घटाएगा । (३) मूल में अपनी जलजलाहट उड़ेल ।

(४) मूल में हे यहोवा आमेन ।

- ८ पर उन्होंने ने मेरी न सुनी न मेरी घोर कान लगाया बरन अपने अपने बुरे मन के हठ पर चले और मैं ने उन के विषय इस वाचा की सब बातों को जिस के मानने की मैं ने उन्हें आज्ञा दी और उन्होंने ने न मानी पूरा किया है ॥
- ९ फिर यहोवा ने मुझ से कहा यहूदियों और यरूशलेम के वासियों में द्रोह की मोछी पाई गई है ।
- १० जैसे इन के पुरखा मेरे बचन सुनने को नकारते थे वैसे ही ये उन के अधमों के अनुसार करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उन की उपासना करते हैं इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैं ने उन के पित्रों से बांधी थी तोड़ दिया है । इस लिये यहोवा यों कहता है कि सुन मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिस से ये बच न सकेंगे और चाहे ये मेरी
- ११ दोहाई दें पर मैं इन की न सुनूंगा । उस समय यरूशलेम आदि यहूदा के नगरों के निवासी आकर उन देवताओं की चिन के लिये ये धूप जलाते हैं दोहाई देंगे पर ये उन की विपत्ति के समय उनको कुछ भी न
- १२ बचा सकेंगे । हे यहूदा जितने तेरे नगर उतने तेरे देवता भी हैं और यरूशलेम के निवासियों ने एक एक सड़क में उस लजवानेहारे बाल की वेदियाँ बना बनाकर उस
- १४ के लिये धूप जलाया है । सो तू मेरी इस प्रजा के लिये प्रार्थना मत कर न तो इन लोगों के लिये ऊँचे स्वर से प्रार्थना कर क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दोहाई देंगे तब मैं इन की न सुनूंगा ॥
- १५ मेरी प्यारी को मेरे घर में तेरा क्या काम है उस ने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है? क्योंकि जब तू बुराई
- १६ करती है तब न हुलसती है । यहोवा ने तुझ को हरी मनोहर सुन्दर फलवाली जला गई तो कहा था पर उस ने बड़े जोर शोर से उस में आग लगाई और उस की
- १७ डालियाँ तोड़ डाली गई । और सेनाओं का यहोवा जिस ने तुम्हें लगाया उस ने तुझ पर विपत्ति डालने के लिये कहा है? इस का कारण इस्राएल और यहूदा के घरानों की वह बुराई है जो उन्होंने ने मुझे रिस दिलाने के लिये बाल के निमित्त धूप जलाकर किया ॥
- १८ और यहोवा ने मुझे बताया सो यह बात मुझे मालूम हो गई क्योंकि हे यहोवा तू ने उन की
- १९ युक्तियाँ मुझ पर प्रगट कीं । मैं तो बच होनेहारे<sup>४</sup> मेड़ के पालतू बच्चे के समान अनजान था मैं

जानता न या कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियाँ यह कहकर करते हैं कि आओ हम फल<sup>५</sup> समेत इस देश को उखाड़ दें और जीवतों के बीच में से काट डालें तब इस का नाम फिर स्मरण न रहे । पर अब २० हे सेनाओं के यहोवा हे धर्मी न्यायी हे मन की जानने-हारे जब तू उन्हें पकड़ा दे तब मैं उसे देखने पाऊँ क्योंकि मैं ने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है<sup>६</sup> । इस लिये यहोवा ने मुझ से कहा अनातोत के लोग २१ जो तेरे प्राण के लोभी हैं और यह कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर नष्ट न कर नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा, सो उन के विषय सेनाओं का यहोवा २२ यों कहता है कि मैं उन को दण्ड दूंगा उन में के अबान तो तलवार से और उन के लड़के सर्दकियाँ भूस से मरेगी । और उन में से कोई भी बचा न रहेगा मैं २३ अनातोत के लोगों पर विपत्ति डालूँगा उन के दण्ड का दिन<sup>७</sup> आनेहारा है ॥

१२. हे यहोवा यदि मैं तुझ से मुकद्दमा लड़ूँ तो तू धर्मी ठहरेगा लौभी मुझे अपने संग इस विषय वादविवाद करने दे कि दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है क्या कारण है कि जितने बड़ा विश्वासपात करते हैं सो बहुत सुख से रहते हैं । तू ने उन को रोपा और उन्होंने ने जड़ भी पकड़ी वे २ बढ़ते और फूलते फलते भी हैं वे मुँह से तो तुम्हें निकट ठहराते पर मन से दूर रहते हैं । हे यहोवा तू मुझे ३ जानता है तू मुझे देखता और मेरे मन को जाँचकर जान भी लिया है कि मैं तेरी ओर कैसा रहता हूँ सो जैसे मेड़ बकरियाँ घात होने के लिये भुँड में से निकाली जाती हैं वैसे ही उन को भी निकाल ले और बच के दिन के लिये तैयार<sup>८</sup> कर रख । कब लों देश विलाप ४ करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब विलाप गये हैं क्योंकि उन लोगों ने कहा कि वह हमारे अन्त को देखने न पाएगा ॥

तू जो प्यादों के संग दौड़कर थक गया तो घोड़ों ५ के संग क्योंकर बराबरी कर सकेगा और अब लों तो तू शांति के इस देश में निडर है पर यर्दन के आस पास के घने जंगल में<sup>९</sup> तू क्या करेगा । तेरे भाई और ६ तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासपात किया है

(१) मूल के पवित्र भास तुझ पर से चला गया । (२) मूल में उस ने तेरे विषय बुराई कही । (३) मूल में बच के लिये पहुंचाये जानेहारे ।

(४) मूल में भोजनवस्तु । (५) मूल में तुम्ही को प्रगट किया है । (६) मूल में बरस । (७) मूल में पवित्र । (८) मूल में यर्दन की बुराई में ।

वे भी तेरे पीछे ललकारते आये इस कारण चाहे वे तुझ से भीड़ी बातें भी कहें तो भी उन की प्रतीति न करजा । मैं ने अपना चर छोड़ दिया और अपना निज भाग त्याग दिया मैं ने अपनी प्राणप्रिया को शत्रुओं के वश में कर दिया है । क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में बन में के सिंह के समान हुआ वह मेरे विरुद्ध गरजा १ हे इस कारण मैं ने उस से बैर किया है । क्या मेरा निज भाग मेरे लेखे चिचीचाले और मांसाहारी पक्षी के समान नहीं हुआ जिसे और मांसाहारी पक्षी घेर लेते हों सब बनैले जन्तुओं के भी खा डालने के लिये १० इकट्ठे करो । मेरी दाख की बारी को बहुत से चरवाहों ने नाश कर दिया उन्होंने ने मेरे भार को लताड़ा बरन मेरे मनोहर भाग के खेत को निर्जन जंगल बना दिया ११ है । उन्होंने उस को उजाड़ दिया और वह उजड़कर मेरे साम्हने विलाप कर रहा है सारा देश उजड़ गया १२ इस का कारण यह है कि कोई नहीं सोचता । जंगल में के सब बड़े टीलों पर नाश करनेहारे चढ़े हैं यद्वा की तलवार देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे लों नाश करती जाती है किसी मनुष्य को शांति नहीं १३ मिलती । उन्होंने ने गेहूँ तो बोया पर कटीले पेड़ काटे उन्होंने ने कष्ट तो उठाया पर उस से कुछ लाभ न हुआ यद्वा के कोप भड़कने के कारण अपने खेतों की उपज के विषय में तुम्हारी आशा टूटेगी ॥

१४ मेरे जो दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर जिस का भागी मैं ने अपनी प्रजा इस्राएल को किया हाथ लगाते हैं उन के विषय यद्वा यों कहता है कि मैं उन को उन की भूमि में से उखाड़ डालूंगा पीछे यहूदा के १५ घराने को उन के बीच से उखाड़ूंगा । फिर उन्हें उखाड़ने के पीछे मैं उन पर दया करूंगा और उन में से एक एक को उस के निज भाग और देश में फिर १६ रोपूंगा । और यदि जिस प्रकार से उन्होंने ने मेरी प्रजा को बाल की किरिया खाना सिखाया है उसी प्रकार से वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की किरिया यह कहकर खाने लगें कि यद्वा के जीवन की सों तो १७ मेरी प्रजा के बीच उन का भी बंश बड़ेगा<sup>२</sup> । पर यदि वे न मानें तो मैं ऐसी जाति को ऐसा उखाड़ूंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी यद्वा की यही बाणी है ॥

१३. यद्वा ने मुझ से यों कहा कि जाकर सनी की एक पेटी मोल ले और कमर में बांध और जल में मत भीगने दे ।

सो मैं ने यद्वा के वचन के अनुसार एक पेटी मोल २ लेकर अपनी कमर में बांध ली । फिर यद्वा का यह ३ वचन मेरे पास पहुंचा कि, जो पेटी तू ने मोल लेकर ४ कटि में कसी है सो परात के तीर पर ले जा और वहाँ उस को कड़ाड़े में की एक दरार में छिपा दे । यद्वा ५ की इस आशा के अनुसार मैं ने उस को परात के तीर पर ले जाकर छिपा रक्खा । बहुत दिनों के पीछे यद्वा ६ ने मुझ से कहा फिर परात के पास जा और जिस पेटी को मैं ने तुम्हें वहाँ छिपाने की आशा दी सो वहाँ से ले ले । सो मैं ने फिर परात के पास जा खोद- ७ कर जिस स्थान में मैं ने पेटी को छिपाया था वहाँ से उस को निकाल लिया और देखो पेटी बिगड़ गई वह किसी काम की न रही । तब यद्वा का यह वचन मेरे ८ पास पहुंचा कि, यद्वा यों कहता है कि इसी प्रकार ९ से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व तोड़ दूँगा । इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने १० को नाह करते और अपने मन के हठ पर चलते और दूसरे देवताओं के पीछे चल कर उन की उपासना और उन को दण्डवत् करते हैं सो इस पेटी के समान होंगे जो किसी काम की नहीं रही । यद्वा की यह बाणी ११ है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है उसी प्रकार से मैं ने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटि में बांध लिया है कि वे मेरी प्रजा उठरके मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हों पर उन्होंने ने न माना । सो १२ तू उन से यह वचन कह कि इस्राएल का परमेश्वर यद्वा यों कहता है कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिये जाते हैं तब वे तुझ से कहेंगे क्या हम नहीं जानते कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिये जाते हैं । तब तू उन से कहना यद्वा यों कहता है कि १३ सुनो मैं इस देश के सब रहनेहारों को विशेष करके दाऊदवंश की गद्दी पर विराजनेहारे राजा और याजक और नबी आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपने कोपरूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर दूंगा<sup>२</sup> । तब मैं १४ उन्हें एक दूसरे पर बाप को बेटे पर और बेटे को बाप पर पटक दूंगा । यद्वा की यह बाणी है कि मैं उन पर न कोमलता दिखाऊँगा न तरस खाऊँगा और न दया करके उन को नाश होने से बचाऊँगा ॥

सुनो और कान लगाओ गर्व मत करो क्योंकि १५ यद्वा ने यों कहा है । अपने परमेश्वर यद्वा की १६

(१) मूल में वे बन जावेंगे ।

(२) मूल में निवासियों को मतवालेपन से भरूँगा ।

- महिया उस से पहिले करो कि वह अंधकार करे और तब रात को पहाड़ों पर ठोकर खाओ और जब तुम प्रकाश का आसरा देखते रहो तब वह उस की सन्ती तुम पर घोर अंधकार और बड़ा अंधियारा छा दे ।
- १७ यदि तुम इसे न सुनो तो मैं निराले स्थानों में तुम्हारे गर्व के कारण रोज़गा और आंख से आंखों की धारा बहती रहेगी क्योंकि यहोवा की मेड़ें हर ली गई हैं ॥
- १८ राजा और राजमाता से कह कि नीचे बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारे सिरों पर जो शोभायमान मुकुट हैं सो उतार लिये जाएंगे । दक्षिण देश के नगर घेरे गये कोई उन्हें बचा न सकेगा यहूदी जाति सब बन्धुई हो गई वह तो बिलकुल बन्धुभाई में चली गई है ॥
- १९ अपनी आंखें उठाकर उन की देख जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं वह सुन्दर भुरग्ड कहां है जो तुम्हें सौंपा गया । जब वह तेरे उन मित्रों को जिन्हें तू ने अपनी हानि करने की शिक्षा दी है तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा तब तू क्या कहेगी क्या उस समय तुम्हें जनने-हारी की सी पीढ़ें न उठेंगी । और यदि तू अपने मन में सोचे कि मुझ पर ये बातें किस कारण पड़ी हैं तो तेरा बांधरा जो उठाया गया और तेरी एडियां जो बरियाई से नंगी की गई इस का कारण तेरा बड़ा अधर्म है । क्या हबशी अपना चमड़ा वा चीता अपने घबरे बदल सकता यदि कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी । इस कारण मैं उन को ऐसा तिसर बिस्तर करूंगा जैसा मूसा जंगल के पवन से तिसर बिस्तर किया जाता है । यहोवा की यह वाणी है कि तेरा बांड और मुझ से ठहराया हुआ तेरा भाग यही है इसलिये कि तू ने मुझे भूलकर भूठ पर भरोसा रक्खा है । सो मैं भी तेरा बांधरा तेरे मुंह लों उठाऊंगा तब तेरी पत उतर जाएगी । व्यभिचार और चोचला<sup>२</sup> और छिनाला आदि तेरे चिनौने काम जो तू ने मैदान के टीलों पर किये सो सब मैं ने देखे हैं हे यरूशलेम तुझ पर हाय तू तो शुद्ध नहीं होती और कितने दिन लों बनी रहेगी ॥

### १४. यहोवा का यह वचन विर्मयाह के पास सुखा पढ़ने के विषय

- २ पहुंचा कि, यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहिरावा पहिरे हुए भूमि पर उदास बैठे हैं और यरूशलेम को चिक्काहट आकाश लों पहुंच गई

है<sup>३</sup> । और उन के बड़े लोग उन के छोटे लोगों का पानी के लिये मेजते हैं और वे गढ़ों पर आकर पानी नहीं पाते सो कूछे बर्तन लिये हुए घर लौट जाते हैं वे लज्जित और निराश होकर सिर टांघ लेते हैं । देश में पानी न पढ़ने से भूमि में दरार पड़ गये इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर टांघ लेते हैं । हरिया मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है इसलिये कि हरी घास नहीं मिलती । और बनीले गढ़े भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गीदड़ों की नाईं हांपने हैं उन की आंखें धुन्धला जाती हैं इसलिये कि हरियाली कुछ नहीं है ॥

हे यहोवा हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी देते तो हैं कि हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गये और हम ने तेरे विरुद्ध पाप किया तौभी तू अपने नाम के निमित्त काम कर । हे इस्राएल के आधार हे संकट के समय उस के बचानेहारे तू ही है तू इस देश में परदेशी की नाईं क्यों रहता है तू क्यों उन बटोही के समान है जो कहीं रात भर रहने के लिये टिकता हो । तू विस्मित पुरुष और ऐसे वीर सरीखा क्यों होता है जो बचा न सकता हो हे यहोवा तू हमारे बीच में और हम तेरे कहलाये हैं सो हम को न तज ॥

यहोवा ने इन लोगों के विषय यों कहा कि इन को ऐसा भटकना अच्छा लगता है और कुमार्ग में चलने से ये नहीं रुके इसलिये यहोवा इन से प्रसन्न नहीं और इन का अधर्म स्मरण करेगा और इन के पाप का दरद देगा । फिर यहोवा ने मुझ से कहा मरी इस प्रजा की भलाई के लिये प्रार्थना मत कर । चाहे वे उपवास भी करें तौभी मैं इन की दोहाड़े न सुनूंगा और चाहे वे होमबलि और अन्नबलि चढ़ाएं तौभी मैं इन से प्रसन्न न हूंगा मैं तलवार महंगी और मरी के द्वारा इन का अन्त कर डालूंगा । तब मैं ने कहा हाय प्रभु यहोवा देख नही इन से कहते हैं कि न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी यहोवा तुम को इस स्थान में सदा की शांति देगा । और यहोवा ने मुझ से कहा नबी मेरा नाम लेकर भूठो नबूवत करते हैं मैं ने उन को न तो मेजा और न कुछ आशा दी और न उन से कोई भी बात कही वे तुम लोगों से दर्शन का भूठ दावा करके अपने ही मन से भावी बात की व्यर्थ और धोखे की नबूवत करते हैं । इस कारण जो नबी लोग मेरे बिना मेजे मेरा नाम लेकर नबूवत करते हैं

(१) मूल में खोल ।

(२) मूल में दिनदिनाना ।

(३) मूल में बिल्लाहट चढ़ गई है । (४) मूल में सन्धार की शांति ।

- कि इस देश में न तो तलवार चलेगी और न महुंगी होमी उन के विषय यहोवा यों कहता है कि वे नवी १६  
 आप तलवार और महुंगी से नाश किये जाएंगे। और जिन लोगों से वे नबूधत करते हैं न तो उन का और न उन की कियों और बेटे बेटियों का वाहं मिट्टी देनेहाग रहेगा सो महुंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर वे यरुशलेम की सड़कों में फेंक दिये जाएंगे यों मैं उन की १७  
 बुराई उन्हीं का भुगतारुंगा<sup>१</sup>। सो तू उन से यह बात कह कि मेरी आंखों से रात दिन आंसू लगातार बहते रहेंगे क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी कन्या बहुत ही तोड़ी १८  
 गई और पायल हुई है। याद मैं मैदान में जाऊं तो देखने में क्या आएगा कि तलवार के मारे हुए पड़े हैं और यदि मैं फिर नगर के भीतर आऊं तो देखने में क्या आएगा कि भूख से अबमूर पड़े हैं<sup>२</sup> फिर नबी और याजक अनजाने देश में मारे मारे फिरते हैं ॥
- १९ क्या तू ने यहूदा से बिलकुल हाथ उठा लिया क्या तू सिव्योन से घिना गया है नहीं तो तू ने क्यों हम को ऐसा मारा है कि हम चंगे नहीं हो सकते हम शान्ति की शट जोहते आये हैं तौभी हमें कुछ कल्याण नहीं मिला और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते आये २०  
 हैं तौभी घबराना ही पड़ा है। हे यहोवा हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्मों को भी मान लेते २१  
 हैं कि हम ने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तौभी अपने नाम के निमित्त हमारा तिरस्कार न कर और अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान न कर जो वाचा तू ने हमारे साथ बांधी है उसे स्मरण कर और न तोड़। क्या अन्यजातियों के निकर्मों में से कोई वषा कर सकता है क्या आकाश भड़ियां लगा सकता है हे हमारे परमेश्वर यहोवा क्या तू ही ऐसा करनेहारा नहीं है सो हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे क्योंकि इन सारी वस्तुओं का रचनेहारा तू ही है ॥

१५. फिर यहोवा ने मुझ से कहा यदि

- मूसा और शमूएल भी मेरे साम्हने खड़े होते तौ भी मेरा मन इन लोगों की और न फिरता सो इन को मेरे साम्हने से निकाल और वे २  
 निकल जाएं। और यदि ये तुझ से पूछें कि हम कहाँ निकल जाएं तो कहना कि यहोवा यों कहता है कि जो मरनेवाले हैं सो मरने को चले जाएं और जो तलवार से मरनेवाले हैं सो तलवार से मरने को और जो भूखों मरनेवाले हैं सो भूखों मरने को और जो बंधुए होनेहारे

हैं सो बंधुआई में चले जाएं। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उन के विरुद्ध चार प्रकार की वस्तु<sup>३</sup> उहरारुंगा अर्थात् मार डालने के लिये तलवार और फाड़ डालने के लिये कुत्ते और नोच डालने के लिये आकाश के पक्षी और फाड़ खाने के लिये मैदान के जीवजन्तु। और मैं ४  
 उन्हें ऐसा करुंगा कि वे पृथिवी के राज्य राज्य में मारे मारे फरेंगे यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उस ने यरुशलेम में किये। हे यरुशलेम तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिये शोक करेगा वा कौन तेरा कुशल पूछने का मुड़ेगा। यहोवा की यह वाणी है कि तू जो मुझ को त्यागकर पीछे हट गई है इसलिये मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करुंगा क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। सो मैं ने उन को देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है उन्हीं ने जा कुमार्ग को नहीं छोड़ा इस से मैं ने अपना प्रजा को निर्वेश किया और नाश भी किया। उन की विषवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से आधिक हो गई हैं उन में के जबानों की माता के विरुद्ध मैं दुपहरी का लूटनेहारा लाया हूँ मैं ने उन के आचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया है। सात लड़कों की माता भी सूख गई और प्राण भंग छोड़ ९  
 दिया उस का सूर्य दोपहर ही का अस्त हो गया उस का आगा टट गई और उस के मुंह पर स्याही छा गई और जो बचेंगे उन को भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालुंगा यहोवा की यही वाणी है ॥

हे मेरी माता मुझ पर हाथ कि तू मुझ ऐसे मनुष्य १०  
 को जनी जो संसार भर से भगाड़ा और वादविवाद करनेहारा उहरा है न तो मैं ने ब्याज के लिये रूपए दिये और न किसी ने मुझ को ब्याज पर रुपए दिये हैं तौभी सब लोग मुझे कासते हैं ॥

यहोवा ने कहा निश्चय मैं तेरी मलाई के लिये ११  
 तुझे हड़ करुंगा निश्चय मैं विपात्त और कष्ट के समय शत्रु से भी तेरी बिनती करारुंगा। क्या कोई पीतल वा १२  
 लोहा वा उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है। मैं तेरी १३  
 धन संगति और खजाने उस के सब पापों के कारण जो सारे देश में हुए बिना दाम लिये लुट जाने दूंगा। मैं १४  
 ऐसा करुंगा कि तेरा धन शत्रुओं के साथ ऐसे देश में जिसे तू नहीं जानती चला जाएगा क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है और वह तुम में लग जाएगी ॥

(१) मूल के उन्हीं पर उपरोक्तगा। (२) मूल में भूख के रोगी हैं।

(३) मूल में चार कुल।



- १५ हे यहोवा तू तो जानता है मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सतानेहारों से मेरा पलटा ले तू धीरज के साथ कोप करनेहारा है इसलिये मुझे न उठा ले जान रख कि तेरे ही निमित्त मेरी नामधराई हुई है ।
- १६ जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैं ने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनन्द का कारण हुए क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ । तेरी छाया मुझ पर हुई मैं मन बहलाने-हारों के बीच बैठकर नहीं हुलसा तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा क्योंकि तू ने मुझे क्रोध से भर दिया है ।
- १७ मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती मेरी चोट का क्यों कुछ उपाय नहीं है क्या तू सचमुच मेरे लिये घोखा देने-हारी नदी और सूखनेहारे जल सरीखा होगा ॥
- १९ यह सुनकर यहोवा ने यों कहा कि यदि तू फिर तो मैं तुझे फिरके अपने साम्हने खड़ा करूंगा और यदि तू अनमोल का निकम्मे में से निकाले ता मेरे मुख के समान होगा । वे लोग तेरी ओर फिरें तो फिरें पर तू उन की ओर न फिरना । और मैं तुझ को उन लोगों के साम्हने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा वे तुझ से लड़ेंगे पर तुझ पर प्रबल न होंगे क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिये तेरे संग हूँ यहोवा की यही वाणी है । और मैं तुम्हें दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा ॥

## १६. फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, इस स्थान में

- ३ विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा । क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और उन की माताएं जो उन्हें जनी हों और उन के पिता जो उन्हें इस देश में जन्माये हों उन के विषय यहोवा यों कहता है कि, ये बुरी बुरी रीतियों से मरेंगे और न कोई उन के लिये छाती पीटेगा न उन को मिट्टी देगा वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे और तलवार और महुंगी से मर मिटेंगे और उन की लोथें आकाश के पक्षियों और मैदान के जीवजन्तुओं का आहार होगी । यहोवा ने कहा कि जिस घर में रोना पीटना हो उस में न जाना और न छाती पीटने के लिये कहीं जाना न इन लोगों के लिये शोक करना क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं ने अपनी शान्ति और कृपा और दया इन लोगों पर से खींच ली है । सो इस देश में के छोटे बड़े सब मरेंगे न तो इन को मिट्टी दी जाएगी और न इन के लिये लोग छाती पीटेंगे न अपना शरीर चीरेंगे न सिर मुंडाएंगे,

न लोग इन के लिये शोक करनेहारों को रोटी बांटेंगे कि शोक में इन को शान्ति दें और न लोग पिता या माता के मरने पर भी किसी को शान्ति के कटोरे में दाखलबु पिलाएंगे । फिर तू जेवनार के घर में भी इन के संग खाने पीने के लिये न जाना । क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यों कहता है कि सुन मैं इन लोगों के देखते इन्हीं दिनों में ऐसा करूंगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और आनन्द का शब्द सुन पड़ेगा और न तुम्हें वा तुम्हें का शब्द । और जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझ से पूछें कि यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने का क्यों कहा है हमारा क्या अधर्म है और हम ने अप ने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तो तू इन लोगों से कहना कि यहोवा की यह वाणी है कि तुम्हारे पुरखा तो मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उन की उपासना करते और उन को दण्डवत् करते थे और इस प्रकार उन्होंने मुझ को त्याग दिया और मेरी व्यवस्था पर न चले । और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उस से अधिक तुम करते हो तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते । इस कारण मैं तुम को इस देश से उखाडकर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिस को न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे और वहां तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे और वहां मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूंगा ॥

फिर यहोवा की यह वाणी हुई कि ऐसे दिन आने-वाले हैं जिन में यह फिर न कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उस के जीवन की सेां । वरन यह कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उस ने उन को बरबस कर दिया था छुड़ा ले आया उस के जीवन की सेां क्योंकि मैं उन को उन के निज देश में जो मैं ने उन के पितरों को दिया था लौटा ले आऊंगा । सुनो यहोवा की यह वाणी है कि मैं बहुत से मनुष्यों को बुलवा मेजंगा कि वे इन लोगों को पकड़ लें और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा मेजंगा और वे इन को अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और ढांगों की दरारों में से निकालेंगे । क्योंकि उन का सारा चाल-चलन मेरी आंखों के साम्हने प्रगट है न तो वह मेरी दृष्टि से छिपा है और न उन का अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है । सो पहिले मैं उन के अधर्म और पाप का दूना दण्ड दूंगा इसलिये कि उन्होंने ने मेरे देश को अपनी भिनीनी वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे

निज भाग को अपनी चिनौनी वस्तुओं से भर दिया है ॥

- १९ हे यहोवा हे मेरे बल और हठ गढ़ और संकट के समय मेरे शरणस्थान अन्यजातियों के लोग पृथिवी की छोर छोर से तेरे पास आकर कहेंगे निश्चय हमारे पुरखा झुड़ी धर्य और निष्फल वस्तुओं को अपने भाग में करते आवे हैं । क्या मनुष्य ईश्वरों को बना ले नहीं उता ईश्वर नहीं हो सकते ॥
- २० इस कारण मैं अब की बार इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम जताऊंगा और ये जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है । यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है वह उन के हृदयरूपी पटिया और उन की वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है । फिर उन की जो वेदियाँ और अशोरा नाम देवियाँ हरे पेड़ों के पास और ऊँचे टीला के ऊपर हैं सो उन के लड़कों को भी स्मरण रहती हैं । हे मेरे पर्वत तू जो मैदान में है मैं तेरी घन सर्पात्त और सारा भण्डार और पूजा के ऊँचे स्थान जो तेरे सारे देश में पाये जाते हैं तेरे पाप के कारण छुट जाने दूंगा । और तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का जो मैं ने तुम्हें दिया है अधिकारी न रहने पाएगा और मैं ऐसा करूँगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा क्योंकि तू ने मेरे कोप की आग ऐसी भड़काई कि वह सदा लौ जलती रहेगी ॥
- ५ यहोवा यों कहता है कि स्थापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसी का सहारा लेता और जिस का मन यहोवा से फिर जाता है ।
- ६ वह निर्जल देश के अधभूए पेड़ के समान होगा जब कल्प्याण होगा तब तो उस के लिये नहीं होगा पर वह निर्जल और निर्जन और लोनी भूमि पर रहनेद्वारा होगा । अन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उस को अपना आधार मानता है । वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा और उस की जड़ जल के पास फैली हो सो जब शाम हांगा तब वह उस को न लगेगा और उस के पत्ते हरे बने रहेंगे और सूखे के बरस में उस के विषय कुछ चिन्ता न होगी
- ९ क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा । मन तो सब वस्तुओं से अधिक चोखा देनेद्वारा होता है और उस में असाध्य रोम लगा है उस का मेद कौन समझ सकता है ।
- १० मैं यहोवा मन मन की खोजता और जांचता हूँ कि एक एक जन को उस की चाल के अनुसार उस के कामों का

(१) मूल में भांस का ।

फल दूँ । जो अन्वय से घन बटोरता सो उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिये हुए अण्डों को सेवे वैसा ही वह घन उस मनुष्य को आधी आयु में छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है ॥

हमारा पवित्र स्थान आदि से ऊँचे स्थान पर रखवा हुआ एक तेजोमय सिंहासन है । हे यहोवा हे इस्राएल के आधार जितने तुम्ह को छोड़ देते हैं उन सभी की आशा टूटेगी और जो मुझ से फिर जाते हैं उन के नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे इसलिये कि उन्हां ने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है । हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हूँगा मुझे बचा तब मैं बचूँगा क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ । सुन वे मुझ से कहते हैं कि यहोवा का बचन कहाँ रहा वह अभी पूरा हो जाए । पर तू मरा हाल जानता है कि तरे पीछे चलते हुए मैं ने उतावली करके चरबाहे का काम नहीं छोड़ा और न मैं ने उस आनेवाली निरुपाय विपत्ति की लालसा की है बरन जो कुछ मैं बोलता था सो तुम्ह पर प्रगट होता था । सो तू मुझे न बबरा दे संकट के दिन मेरा शरणस्थान तू ही है । हे यहोवा मरी आशा टूटने न दे पर मेरे सतानेहारों की आशा टूटे मुझे विस्मित न होना पड़े उन्हीं को विस्मित होना पड़े उन पर विपत्ति डाल और उन को चूर चूर कर ॥

यहोवा ने मुझ से यों कहा कि जाकर सदर फाटक में खड़ा हो जिस से यहूदा के राजा भीतर बाहर आया जाया करते हैं बरन यरूशलेम के सब फाटकों में भी खड़ा हो, और उन से कह दूँ यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों हे सब लोगो जो इन फाटकों से होकर भीतर जाते हो यहोवा का बचन सुनो । यहोवा यों कहता है कि साबधान रहो विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठा ले जाओ और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ । फिर विश्रामदिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और न किसी रीति का काम काम करो बरन उस आज्ञा के अनुसार जा मैं ने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी विश्रामदिन को पवित्र माना करो । पर उन्हां ने न सुनी और न कान लगाया पर इसलिये हठ किया कि न सुनें और ताड़ना से भी न मानें । और यहोवा की यह बाणी है कि यदि तुम सचमुच मेरी सुनी और विश्रामदिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ बरन विश्रामदिन को पवित्र मानो

(२) मूल में अपने न । (३) मूल में तू ही मेरी स्तुति है ।

२५ और उस में किसी रीति का काम काज न करो, तब तो इस नगर के फाटकों से होकर दाऊद की गहरी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिमों और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी प्रवेश किया करेंगे और यह नगर सदा लों बसा रहेगा । और यहूदा के नगरो से और यरूशलेम के आस पास से और किन्यामीन के देश से और नीचे के देश से और पहाड़ी देश से और दक्खिन देश से लोग होमबलि मेलबलि अन्नबलि लोवान और धन्यवादबलि लिये हुए यहोवा के भवन में आश्रय करेंगे । पर यदि तुम मेरी सुनकर विभ्राम दिन को पवित्र न मानो पर उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोक लिये हुए प्रवेश करते रहो तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उस से यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर न बुकेगी ॥

### १८. यहोवा की ओर से यह वचन विर्मयाह के पास पहुंचा कि,

२ उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुम्हें अपने वचन सुनाऊंगा । सो मैं कुम्हार के घर गया तो क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है । और जो बासन वह मिट्टी का बनाता था सो बिगड़ गया तब उस ने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया ।

५ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे इस्राएल के घराने यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाईं तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता देख जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसा ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो ।

७ जब मैं किसी जाति वा राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा वा टा दूंगा वा नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिस के विषय मैं ने वह बात कही हो बुराई से फिर तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैं ने उन पर डालने का ठाना हो पछताऊंगा । फिर जब मैं किसी जाति वा राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरे लेखे बुरा है और मेरी बात न मानें तो मैं उस कल्याण के विषय जिसे मैं ने उन के लिये करने का कहा हो पछताऊंगा ।

११ सो अब तू यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों से यह कह कि यहोवा यों कहता है कि सुनो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध कल्पना कर रहा हूँ सो तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चालचलन और काम सुधरो । वे तो

कहते हैं ऐसा होने की आशा नहीं हो सकती हम तो अपनी ही अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे । इस कारण मैं यहोवा यों कहता हूँ कि अन्यजातियों में पूछ कि ऐसी बातें कभी किसी के सुनने में आई हैं इस्राएल की कुमारी ने जो काम किया है उस के सुनने से रोए लड़े हाते हैं । क्या लवानोन का हिम जो चटान पर से मैदान में बहता है बन्द हो सकता है क्या वह ठण्डा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है । मेरी प्रजा तो मुझे मूल गई है और निकम्मी बन्तुओं के लिये धूप जलाया है और उन्हों ने उन के प्राचीन काल के मार्गों में डोकर खला कर उन्हें पगदण्डियों और बेहड़ मार्गों में चलाया है, कि उन का देश उजड़ जाए और लोग उस पर सदा ताली बजाते रहें जो कोई उस के पास से चले सो चकित होगा और सिर हिलाएगा । मैं उन को पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के साम्हने से लिसर बिस्तर कर दूंगा मैं उन की विपत्ति के दिन उन को मुंह नहीं पर पीठ दिखाऊंगा ॥

तब वे कहने लगे चलो विर्मयाह के विरुद्ध युक्तियां करें क्योंकि न याजक से व्यवस्था न ज्ञानी से संमति न नबी से वचन दूर हो जाएंगे सो आओ हम उस की कोई बात पकड़कर उसे नाश कराएं और फिर उस की किसी बात पर ध्यान न दें ॥

हे यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ भगड़ते हैं उन की बातें सुन । क्या मलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उन की मलाई के लिये तेरे साम्हने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ कि तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए और अब उन्हीं ने मेरे प्राण लेने के लिये गड़हा खोदा है । इसलिये उन के लड़केबालों को भूख से मरने दे और वे तलवार से कट मरें और उन की स्त्रियां निर्बन्ध और विधवा हो जाएं और उन के पुरुष मरी से मरें और जबान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं । जब तू उन पर अचानक दल चढ़ाएगा तब उन के घरों से चिल्लाहट सुनाई दे क्योंकि उन्हीं ने मेरे लिये गड़हा खोदा और मेरे फंसाने का फन्दे लगाये हैं । हे यहोवा तू तो उन की सब युक्तियां जानक है जो वे मेरी मृत्यु के लिये करते हैं सो तू उन के इस अधर्म को टांप न देना न उन के पाप को अपने

(१) मूल में जो पर देशी । (२) मूल में उखड़ । (३) मूल में अन-बने । (४) मूल में हम उस की जीभ मारे । (५) मूल में उन्हीं तल-वार के हाथों में सौंप दे ।

साम्ने से मिया देना वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर फिर जार्द त कोप में आकर उन से इसी प्रकार का व्यवहार कर ॥

**१६. यहोवा ने यों कहा जाकर कुम्हार**

की बनाई हुई मिट्टी की एक सुराही मोल ले और प्रजा के पुरनियों में से और याजकों के पुरनियों में से भी कितनों को साथ लेकर, २ हिन्नोमियों की तराई में उस फाटक के निकट चला जा जहां ठीकर फेंक दिये जाते हैं और जो वचन मैं कहूँ उसे वहां प्रचार कर । तू यह कहना कि हे यहूद के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों यहोवा का वचन सुनो इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं इस स्थान पर ऐसी विपत्ति डाला चाहता हूँ कि जो कोई उस का समाचार सुने वह सजाटे में आ जाएगा । क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान को पराया कर दिया और इस में दूसरे देवताओं के लिये जिन को न तो वे जानते हैं और न उन के पुरखा वा यहूदा के पुराने राजा जानते थे धूप जलाया और इस स्थान को निर्दोषों के लोहू से भर दिया है, और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने लड़के-बालों को बाल के लिये होम कर दिया यद्यपि इस की आज्ञा मैं ने कभी न दी न उस ६ की चर्चा की न वह कभी मेरे मन में आया । इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि यह स्थान फिर तोपेत वा हिन्नोमियों की तराई न कहाएगा घात ही की तराई कहाएगा । और मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा और उन को उन के प्राण के शत्रुओं के हाथ से तलवार चलवाकर गिरा दूंगा और उन की लोथें आकाश के पक्षियों और भूमि के जीवजन्तुओं का आहार कर दूंगा । और मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देख के ताली बजाएंगे और जो कोई इस के पास से चले सो इस की सारी विपत्तियों के कारण चकित होगा और ताली बजाएगा । और फिर जाने और उस सकेती के समय जिस में उन के प्राण के शत्रु इन को डालेंगे मैं इन्हें इन्हीं के बेटे बेटियों का और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा । १० तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के साम्हने जो तेरे ११ संग जाएंगे तोड़ देना । और उन से कहना कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का

(१) मूल में उन के कान संसनावेंगे ।

बासन जो डूट गया सो फिर बनाया न जाएगा इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा और तोपेत नाम तराई में इतनी कबरें होंगी कि कबर के लिये और स्थान न रहेगा । यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इस के रहनेहारों से ऐसा ही काम करूंगा मैं इस नगर को तोपेत के तुल्य बना दूंगा । और यरूशलेम के सब घर और यहूदा के राजाओं के भवन जिन की छतों पर आकाश का सारी सेना के लिये धूप जलाया और दूसरे देवताओं के लिये तपावन दिया गया है सो तोपेत के बराबर अशुद्ध हो जाएंगे ॥

तब यिर्मयाह तोपेत से जहां यहोवा ने उसे नष्ट करने का भेजा था लौट आकर यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि सुनो मैं सब गांवों समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति जो मैं ने इस पर डालने का कहा है डाला चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ने हठ करके मेरे वचन को न माना है ॥

**२०. जब यिर्मयाह यह नष्ट कर रहा**

था तब इम्वेय का पुत्र पशहूर जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाल था सो सुन रहा था । सो पशहूर ने यिर्मयाह नहीं को मारा और उस काठ में डाल दिया जो यहोवा के भवन के ऊपरवार बिन्यामीन के फाटक के पास है । फिर विहान को पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया तब यिर्मयाह ने उस से कहा यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं मागोमिस्ताबीब रखवा है । क्योंकि यहोवा ने यों कहा है कि सुन मैं तुझे तेरे ही लिये और तेरे सब मित्रों के लिये भी भय का कारण ठहराऊंगा और वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही मर जाएंगे और मैं सारे यहूदियों को बाबेल के राजा के बश में कर दूंगा और वह उन को बन्धुए करके बाबेल में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा । फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इस में की कमाई और इस में की सब अनमोल वस्तुएं और यहूदा के राजाओं का जितना रक्खा हुआ धन है उस सब को उन के शत्रुओं के बश में कर दूंगा और वे उस को लूटकर अपना कर लेंगे और बाबेल में ले जाएंगे । और हे पशहूर तू उन सब समेत जो तेरे घर

(२) अर्थात् चारों ओर भय ही भय ।

में रहते हैं बन्धुभाई में चला जाएगा और तू अपने उन मित्रों समेत जिन से तू ने झूठी नबूवत की बाबेल जाएगा और वहीं मरेगा और वहीं तुझे और उन्हें मिट्टी दी जाएगी ॥

- ७ हे यहोवा तू ने मुझे घोखा दिया और मैं ने घोखा खाया तू मुझ से बलवन्त है इस से तू मुझ पर प्रबल हो गया मेरी दिन भर हंसी होती है और सब कोई मुझ से ठट्टा करते हैं । जब जब मैं बातें करता हूँ तब तब उपद्रव हुआ उपद्रव उत्पात हुआ उत्पात ऐसा चिन्तलाना पड़ता है क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे
- ८ लिये निन्दा और ठट्टे का कारण होता रहता है । और यदि मैं कहूँ कि मैं उस की चर्चा न करूँगा न उस के नाम से बोलूँगा तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी कि मानो मेरी हड्डियों में भड़की हुई आग है और मैं अपने को रोकते रोकते हार जाता और सब नहीं सकता । मैं ने बहुतों के मुँह से अपना अपवाद सुना चारों ओर भय ही भय है मेरे सब जानी पहचानी जो मेरे ठोकर खाने की बाट ओहते हैं वे कहते हैं कि उस के दोष बताओ तब हम उन की चर्चा फैला देंगे क्या जानिये वह घोखा खाए तो
- ११ हम उस पर प्रबल होकर उस से पलटा लेंगे । पर यहोवा मर्चकर वीर सा है वह मेरे संग है इस कारण मेरे सताने-हारे प्रबल न होंगे वे ठोकर खाकर गिरेंगे वे बुद्धि से काम नहीं करते सो उन्हें बहुत लजाना पड़ेगा उन का अनादर सदा बना रहेगा और कभी भिसर न जाएगा ।
- १२ और हे सेनाओं के यहोवा हे धर्मियों के जाननेहारे और मन की जाननेहारे जो पलटा तू उन से लेगा सो मैं देखने पाऊँ क्योंकि मैं ने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है । यहोवा के लिये गाओ यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है ॥
- १४ सापित हो वह दिन जिस में मैं उत्पन्न हुआ जिस
- १५ दिन मेरी माता मुझ को जनी सो अन्य न हो । सापित हो वह जन जिस ने मेरे पिता को यह समाचार देकर कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ उस को बहुत आनन्दित
- १६ किया । उस जन की दशा उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन पकृताये ढा दिया और उसे सवेरे तो चिकड़ाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुन पड़ा
- १७ करे । क्योंकि उस ने मुझे गर्भ ही में न मार डाला कि मेरी माता का गर्भ मेरी रुबर होती और मैं उसी में सदा पड़ा रहता । मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने और अपना जीवनकाल नामधराई में काटने को जन्मा ॥

२१. यह वचन यहोवा की ओर से विर्मयाह के पास उस समय पहुँचा जब सिदकियाह राजा ने उस के पास मलिकियाह के पुत्र पशुर और मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला मेजा कि हमारे लिये यहोवा से पूछ क्योंकि बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध करता है क्या जानिये यहोवा हम से अपने सब आश्चर्यकर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से उठ जाए । तब विर्मयाह ने उन से कहा तुम सिदकियाह से यों कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि सुनो युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हैं जिन से तुम बाबेल के राजा और शहरपनाह के बाहर घेरनेहारे कसदियों से लड़ते हो उन को मैं लौटाकर इस नगर के बाँच में इकट्ठा करूँगा । और मैं आप तुम्हारे साथ बढ़ाये हुए हाथ और बलवन्त भुजा से और कोप और जल-जलाहट और बड़े क्रोध में आकर लड़ूँगा । और मैं क्या मनुष्य क्या पशु इस नगर के सब रहनेहारों को मार डालूँगा वे बड़ी मरी से मरेंगे । और यहोवा की यह वाणी है कि उस के पीछे हे यहूदा के राजा सिदकियाह मैं तुम्हें और तेरे कर्मचारियों और लोगों को बरन जो लोग इस नगर में मरी तलवार और महुँगी से बचे रहेंगे उन को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर और उन के प्राण के शत्रुओं के बश में कर दूँगा और वह उन को तलवार से मार डालेगा वह उन पर न तो तरस खाएगा और न कुछ कामलता करेगा न कुछ दया । और इस प्रजा को लोगों से यों कह कि यहोवा यों कहता है कि सुनो मैं तुम्हारे सामने जीवन का उपाय और मृत्यु का भी उपाय बताता हूँ । जो कोई इस नगर में रहे सो तलवार महुँगी और मरी से मरेगा पर जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुम को घेर रहे हैं भाग जाए सो जीता रहेगा और उस का प्राण बचेगा । क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं ने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिये नहीं भुराई ही के लिये किया है सो यह बाबेल के राजा के बश में पड़ जाएगा और वह इस को फुंकवा देगा ॥

और यहूदा के राजकुल के लोगों से कह कि यहोवा का वचन सुनो कि हे दाऊद के घराने यहोवा यों कहता है कि भोर भोर को न्याय चुकाओ और छुटे हुए को अँधेर करनेहारे के हाथ से छुड़ाओ नहीं तो तुम्हारे घुरे कामों के कारण मेरे कोप की आग भड़केगी और जलती रहेगी और कोई उसे बुझा न सकेगा । यहोवा की यह वाणी है कि हे तराई में और समथर देश की चटान में रहनेहारी मैं तेरे विरुद्ध हूँ तुम तो

कहते हो कि हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वासस्थान में कौन बैठ सकेगा पर मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ ।  
 १४ और यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें दण्ड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगतार्जगा और मैं उस को धन में भाग लगार्जगा जिस से उस के चारों ओर सब कुछ मरम हो जाएगा ॥

२२. यहोवा ने यों कहा कि यहूदा के राजा के भवन में उतर

२ जाकर यह वचन कह कि, हे दाऊद की गद्दी पर विराजनेहारे यहूदा के राजा तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया करते हैं  
 ३ यहोवा का वचन सुन । यहोवा यों कहता है कि न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुए को अंचेर करनेहारे के हाथ से छुड़ाओ और परदेशी और बगमूए और विधवा पर अंचेर और उपद्रव न करो और इस स्थान  
 ४ में निर्दोषों का लोहू मत बहाओ । और देखो यदि तुम ऐसा करो तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजनेहारे राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश  
 ५ किया करेंगे । पर यदि तुम इन बातों को न मानो तो यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही किरिया  
 ६ खाता हूँ कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा । यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय यों कहता है कि तू मुझे गिलाद देश और लबानोन का शिलर सा देख  
 ७ पड़ता है पर निश्चय मैं तुम्हें जंगल और निर्जन नगर बनाऊंगा । और मैं नाश करनेहारों को हाथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा वे तेरे सुन्दर देवदारों को काटकर  
 ८ आग में भोंक देंगे । और जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलें तब एक दूसरे से पूछेंगे कि यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है ।  
 ९ तब लोग कहेंगे कि इस का कारण यह है कि उन्होंने ने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दण्डवत् और उन की उपासना की ॥  
 १० मरे हुए के लिए मत रोओ उस के लिये विलाप मत करो जो परवेश चला गया है उसी के लिये फूट फूटकर रोओ क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को  
 ११ फिर कभी देखने न पाएगा । क्योंकि यहूदा के राजा योशियाह का पुत्र शलूम जो अपने पिता योशियाह के स्थान पर राजा हुआ और इस स्थान से निकल गया उस के विषय यहोवा यों कहता है कि वह फिर यहां  
 १२ लौटकर न आने पाएगा । जिस स्थान में वह बन्धुआ

होकर गया उसी में मर जाएगा और इस देश को फिर देखने न पाएगा ॥

उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी ऊपरौठी कांठार्यों को अन्याय से बनवाता है और अपने पड़ोसी से बेगारी काम कराता और उस की मजूरी नहीं देता । वह कहता है कि मैं लम्बा चौड़ा घर और हवादार कोठा बनवा लूंगा और वह खिड़कियां खवा लेता है फिर वह देवदार की लकड़ी से पाटा और सिन्दूर से रंगा जाता है । तू जो देवदार की लकड़ी के विषय देखादेखी करता है क्या इस रीति तेरा राज्य बना रहेगा देख तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वह खाता पीता और सुख से रहता था । वह इस कारण सुख से रहता था कि दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था । यहोवा की यह वाणी है क्या ऐसा करना मुझे जानना नहीं है । पर तू केवल अगना ही लाभ उठाने और निर्दोषों का खून करने और अंचेर और उपद्रव करने पर मन और हाँप लगाता है । इसलिये योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय यहोवा यह कहता है कि जैसे लोग इस रीति कहकर रोते हैं कि हाय मेरे भाई वा हाय मेरी बहिन वा हाय मेरे प्रभु वा हाय तेरा विभव ऐसा तेरे लिये कोई विलाप न करेगा । बरन उम्र का गदहे की नाई मिट्टी दी जाएगी वह घसीटकर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा ॥

लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिन्हा फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर क्योंकि तेरे सब यार नाश हो गये । मैं ने तेरे सुख के समय तुम्ह को चिताया था पर तू ने कहा कि मैं तेरी न सुनूंगी । तेरे वचन ही से ऐसी बन पड़ी है कि तू मेरी नहीं सुनती । तेरे सारे चरवाहे वायु से उड़ाये जाएंगे और तेरे यार बन्धुवाई में चले जाएंगे निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराई के कारण लजित होगी और तेरे मुंह पर सियाही छापगी । हे लबानोन की रहनेहारी हे देवदार में अपना घोंसला बनानेहारी जब तुम्ह को जननेहारी की सी पीड़ें उठें तब तू बपुरी हो जाएगी । यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सी चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दहिने हाथ की अंगूठी भी होता तौमी मैं उसे उतार फेंकता । मैं तुम्हें तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिन से तू डरता है उन के अर्थात् बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियां के हाथ में कर दूंगा । और मैं तुम्हें जननी समेत दूसरे एक देश में जो

तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दंगा और वहीं तुम मर  
२७ जाओगे । और जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा  
करते हैं वहां लौटने न पाएंगे ॥

२८ क्या यह पुरुष केन्याह तुम्हें और टूटा  
हुआ बासन है क्या यह निकम्मा बरतन है फिर वह  
वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया  
२९ जाएगा । हे पृथिवी हे पृथिवी हे पृथिवी यहोवा का

३० वचन सुन । यहोवा यों कहता कि इस पुरुष को  
निर्वंश लिखो इस का जीवनकाल तो कुशल से न बीतेगा  
और इस के वंश में से कोई भाग्यवान् होकर दाऊद की  
गद्दी पर विराजनेहारा वा यहुदियों पर प्रभुता करनेहारा  
न होगा ॥

### २३. यहोवा की यह वाणी है उन चर-

वाहों पर हाय कि जो मेरी  
चराई की भेड़ बकरियों को नाश और तित्तर बित्तर करते  
२ हैं । इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरानेहारे  
चरवाहे से यों कहता है कि तुम ने जो मेरी भेड़ बकरियों  
की सुध नहीं ली भरन उन को तित्तर बित्तर दिया और  
बरबस निकाल दिया इस कारण यहोवा की यह वाणी  
३ है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दण्ड दूंगा । और मेरी जो  
भेड़ बकरियां बची हैं उन को मैं उन सब देशों में से जिन  
में मैं ने उन्हें बरबस कर दिया है धार फेर लाकर उन्हीं  
की भेड़शाला में इकट्ठी करूंगा और वे फिर फूलें फलेंगी ।  
४ और मैं उन के ऐसे चरवाहे ठहराऊंगा जो उन्हें चराएंगे  
और तब से वे फिर न तो डरेंगी न विस्मित होगी और  
न उन में से कोई खी जाएगी यहोवा की यही वाणी है ।

५ यहोवा की यह भी वाणी है कि सुन ऐसे दिन आते  
हैं कि मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी पल्लव का  
उगाऊंगा और वह राजा होकर बुद्धि से राज्य करेगा और  
६ अपने देश में न्याय और धर्म करेगा । उस के दिनों में  
यहुदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे  
और उस का यहोवा हमारी धार्मिकता नाम रक्खा  
७ जाएगा । सुन यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते  
हैं जिन में लोग फिर न कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्रा-  
एलियों को मिस्र देश से लुड़ा ले आया उस के जीवन  
८ की सां । वे यही कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएल के  
घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां  
उस ने हमें बरबस कर दिया लुड़ा ले आया उस के  
जीवन की सां और वे अपने हां देश में बसे रहेंगे ॥

९ नबियों के विषय मेरा हृदय भीतर भीतर फटा जाता  
है मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं यहोवा ने जो पवित्र

वचन कहा है उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो  
गया हूँ जो दाखमधु के नशे में चूर हो गया हो । क्योंकि १०  
यह देश व्याभिचारियों से भरा है इस पर ऐसा झाप  
पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है वन में की चराइयां  
भी मूल गईं और लोवा बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं पर  
बुराई ही की और और वीरता तो करते हैं पर अन्याय ही  
में ११ । क्योंकि नबी और यात्रक दोनों भक्तिहीन हो गये  
अपने भवन में भी मैं ने उन की बुराई पाई है यहांवा  
की यही वाणी है । इस कारण उन का मार्ग अन्धेरा और १२  
फिसलहा होगा जिस में वे ढकेलकर गिरा दिये जाएंगे  
और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उन के दण्ड के  
बरस में उन पर विपत्ति डालूंगा । शोभरोन के नबियों में १३  
तो मैं ने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से  
नष्टवत करते और मेरी प्रजा इस्राएल को भटका देते थे ।  
पर यरूशलेम के नबियों में मैं ने ऐसे काम देखे हैं जिन १४  
से रोएं खड़े हो जाते हैं अर्थात् व्याभिचार और पाखण्ड  
और वे कुकर्मियां को ऐसा दिया वन्धाते हैं कि वे  
अपनी अपनी बुराई से नहीं फिरते सब निरासी मेरे लेखे  
सदोमियों और अमोरियों के समान हो गये हैं । इस १५  
कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के नबियों के विषय  
यों कहता है कि सुन मैं उन को कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा  
और विष पिलाऊंगा क्योंकि उन के कारण सारे देश में  
भक्तिहीनता फैल गई है ॥

सेनाओं के यहोवा ने तुम से यों कहा है कि इन १६  
नबियों की बातों की और जो तुम से नष्टवत करते हैं  
कान मत लगाओ क्योंकि ये तुम को व्यर्थ बातें सिखाते  
हैं ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं  
अपने ही मन की बातें कहते हैं । जो लोग मेरा तिरस्कार १७  
करते हैं उन से ये नबी सदा कहते रहते हैं कि यहोवा  
कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा और जितने लोग  
अपने दृढ ही पर चलते हैं उन से ये कहते हैं कि तुम पर  
कोई विपत्ति न पड़ेगी । मला कौन यहोवा की गुप्त सभा १८  
में खड़ा होकर उस का वचन सुनने और समझने  
पाया वा किस ने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है । सुनो १९  
यहोवा की जलजलाहट की आंखी और प्रचण्ड बवण्डर  
चलने लगा है और उस का भोंका तुष्टों के सिर पर बल से  
लगेगा । और जब लो यहोवा अपना काम और अपनी २०  
युक्तियों को पूरी न कर चुके तब लो उस का कोप शान्त  
न होगा । अन्त के दिनों में तुम इस बाँध को भली भाँति  
नमस्क सकेगो । ये नबी बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और २१

(१) मूल में और उन की दौड़ बुरी और उन की वीरता नाहक है ।

(२) मूल में देखने और सुनने ।

२२ बिना मेरे कुछ कहे नबूवत करने लगते हैं। और यदि ये मेरी गुप्त सभा में खड़े होते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी चुरी चाल और कामों से फिर आते। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं ऐसा

२३ परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूँ क्या स्वप्न और पृथिवी दोनों मुझ से परिपूर्ण नहीं हैं। मैं ने इन नबियों की भी बातें सुनी हैं जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी नबूवत करते हैं कि मैं ने स्वप्न देखा है स्वप्न।

२४ जो नयी झूठमूठ नबूवत करते और अपने छुली मन ही के नबी हैं इन के मन में यह बात कब लौ समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगें वे जैसे ही अब थे नबी उन से अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम बिसरवाने चाहते हैं। जो किसी नबी ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए और जो किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए यहोवा की यह वाणी है कि

२५ कहां भूसा और कहां गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर का फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है कि सुनो जो नबी मेरे वचन औरों से चुरा चुराकर बोलते हैं उन के मैं विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो नबी उस की यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाने हैं उन के भी मैं विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे वा बिना मेरी आज्ञा पाये स्वप्न देखने का झूठा दावा करके नबूवत करते हैं और उस का वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमण्ड में आकर भरमाते हैं उन के भी मैं विरुद्ध हूँ और उन से मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा ॥

२६ यदि साधारण लोगों में से कोई जन वा कोई नबी वा याजक तुम्हें से पूछे कि यहोवा ने क्या भारी वचन कहा है तो उस से कहना कि क्या भारी वचन, यहोवा की यह वाणी है मैं तुम को त्याग दूंगा। और जो नबी वा याजक वा साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे उस को घराने समेत मैं दण्ड दूंगा। सो तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से वे पूछना कि यहोवा ने क्या उत्तर दिया वा यहोवा ने क्या कहा है। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा तुम आगे को न कहना नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दण्ड का कारण हो जाएगा क्योंकि हमारा

परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीता परमेश्वर है उस के वचन तुम लोगों ने मोड़ दिये हैं। सो तू नबी से ३७ यों पूछ कि यहोवा ने तुम्हें क्या उत्तर दिया वा यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा ही कहोगे तो यहोवा का यह वचन सुनो कि मैं ने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है कि यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा आगे को न कहना पर तुम यह कहते ही रहत हो कि यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। इस कारण सुनो ३९ मैं तुम को बिलकुल भूलूंगा और तुम को और इस नगर का जो मैं ने तुम्हारे पुरखाओं का और तुम को भी दिया है त्यागकर अपन साम्हने से दूर कर दूंगा। और ४० मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी बिसर न जाएगा ॥

## २४. जब बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर

यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह के और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और और कारीगरों को बन्धुए करके यरूशलेम से बाबेल का ले गया उस के पीछे यहोवा ने मुझ को अपने मन्दिर के साम्हने रखे हुए अंजीरों के दो टोकरे दिखाये। एक टोकरे में तो पहिले पके से अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे बरन वे ऐसा निकम्मे थे कि खाने के योग्य न थे। फिर यहोवा ने मुझ से पूछा हे विर्मयाह तुम्हें क्या देख पड़ता है मैं ने कहा अंजीर, जो अंजीर अच्छे हैं सो तो बहुत ही अच्छे हैं पर जो निकम्मे हैं सो बहुत ही निकम्मे हैं बरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य नहीं हैं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जैसे अच्छे अंजीरों को जैसे ही मैं यहूदी बन्धुओं को जिन्हें मैं ने इस स्थान से कस-दियों के देश में भेज दिया है देखकर प्रसन्न हूंगा। और मैं उन पर कृपादृष्टि रखूंगा और उन का इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नाश न करूंगा पर बना-उंगा और उखाड़ न डालूंगा पर लगाये रखूंगा। और मैं उन का ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उन का परमेश्वर ठहरूंगा क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। और जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाये नहीं जात उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकियाह और उस के हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में वा भिस में रह गये हैं छोड़ दूंगा। और मेरे



छोड़ने के कारण वे पृथिवी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुःख भोगते रहेंगे और जितने स्थानों में मैं उन्हें बरबस कर दूंगा उन सभी में वे नामधराई और १० हृष्टान्त और स्नाप का विषय होंगे। और मैं उन में तलवार चलाऊंगा और महुंगी और मरी फैलाऊंगा और अन्त में वे इस देश में से जो मैं ने उन के पुरखाओं को और उन को दिया मिट जायेंगे ॥

## २५. योशियाह के पुत्र यहूदा के

राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस में जो बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहिला बरस था यहोवा का जो वचन यिर्म- २ याह नबी के पास पहुंचा सो यह है। सो यिर्मयाह नबी ने उसी वचन के अनुसार सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों से कहा कि, अमोन के पुत्र यहूदा के ३ राजा योशियाह के राज्य के तेरहवें बरस से लेकर आज के दिन लो अर्थात् तेईस बरस से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है और मैं तो उसे बड़े यत्न के साथ तुम से कहता आया हूँ पर तुम ने उसे नहीं सुना। ४ और यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को भी यह कहने को बड़े यत्न से भेजता आया है पर ५ तुम ने न तो सुना न कान लगाया है, वे ऐसा कहते आये हैं कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुम को भी सदा के लिये ६ दिया है उस पर बसे रहने पाओगे। और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उन की उपासना और उन को दण्डवत् मत करो और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिश दिलाओ तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। ७ यह सुनने पर भी तुम ने मेरी नहीं मानी बरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिश दिलाते आये हो जिस से तुम्हारी हानि ही हो सकती है यहोवा की यही ८ वाणी है। इसलिये सेनाओं का यहोवा यों कहता है ९ कि तुम ने जा मेरे वचन नहीं माने, इसलिये सुनो मैं उत्तर में रहनेहारें सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा मेजंगा और उन १० सभी को इस देश और इस के निवासियों के विरुद्ध और इस के आस पास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके ऐसा उजा- ११ हूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजायेंगे बरन ये सदा

उजड़े ही रहेंगे यहोवा की यही वाणी है। और मैं ऐसा १० करूंगा कि इन में न तो हर्ष और आनन्द का शब्द सुन पड़ेगा और न दुल्हे वा दुल्हन का और न चक्की का भी शब्द सुन पड़ेगा और न इन में दिया जलोगा। और सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा ११ और ये सब जातियां सत्तर बरस लो बाबेल के राजा के अधीन रहेंगी। और यहोवा की यह वाणी है कि जब १२ सत्तर बरस बीत चुकें तब मैं बाबेल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दण्ड दूंगा और उस देश को सदा के लिये उजाड़ दूंगा। और मैं उस देश में अपने वे सब १३ वचन जो मैं ने उस के विषय में कहे हैं और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध नबूत करके पुस्तक में लिखे हैं पूरे करूंगा। और बहुत सी जातियों के १४ लोग और बड़े बड़े राजा उन से भी अपनी सेवा करायेंगे और मैं उन को उन की करनी का फल भुगताऊंगा ॥

इसाएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझ से यों कहा १५ कि मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिन के पास मैं तुम्हें भेजता हूँ। और वे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं १६ उन के बीच चलाऊंगा लड़खड़ायेंगे। और बाबले हो जायेंगे सो मैं ने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दिया जिन के पास यहोवा ने मुझे भेज दिया। अर्थात् यरूशलेम और यहूदा के और नगरों १७ के निवासियों को और उन के राजाओं और हाकिमों को पिलाया कि उन का देश उजाड़ होए और लोग ताली बजायें और उस की उपमा देकर स्नाप दिया करें जैसा आजकल होता है। और मिस्र के राजा फिरोन और उस के कर्म- १८ चारियों हाकिमों और और सारी प्रजा को, और सब २० दोगले मनुष्यों की जातियों को और उस देश के सब राजाओं को और पलिश्तियों के देश के सब राजाओं को और अश्कलोन अज्या और एफोन के और अशदोद के बचे हुए लोगों को, और एदोनियों मोआबियों और अम्मो- २१ नियों को, और सेर के सारे राजाओं को और सीदोन के २२ सब राजाओं को और समुद्र पार के देशों के राजाओं को, फिर ददानियों तेमाइयों और बूजियों को और जितने २३ अपने गाल के बालों को मुड़ा डालते हैं उन सभी को भी, और अरब के सब राजाओं को और जंगल में रह- २४ नेहारे दांगले मनुष्यों के सब राजाओं को, और जिब्री २५ एलाम और मादै के सब राजाओं को, और क्या निकट २६ क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया निदान भरती भर पर रहनेहारे जगत के राज्यों

के सब लोगों को मैं ने पिलाया और इन सब के पीछे शेषक<sup>१</sup> के राजा को भी पीना पड़ेगा ॥

- २७ तू उन से बह कह कि सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यों कहता है कि पीओ और मतवाले हो और छांट करो और गिर पड़ो और फिर कभी न उठो यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच चलाऊंगा । और यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने को नकारें तो उन से कहना सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि तुम को निश्चय पीना पड़ेगा । देखो जो नगर मेरा कहलाता है मैं पहिले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहरके बचोगे तुम ता निर्दोष ठहरके न बचाओ क्योंकि मैं पृथिवी के सब रहनेहारों पर तलवार चलाने पर हूँ ॥
- २८ सेनाओं के यहोवा की यही चार्ण है । इतनी बातें नबूवत की रीति उन से कहकर यह भी कहना कि यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा वह अपनी चरार्ण के स्थान के विरुद्ध बल से गरजेगा वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़नेहारों की नाई ललाकरेगा ।
- २९ पृथिवी की छोर लों भी कोलाहल होगा क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकद्दमा है वह सारे मनुष्यों से वादविवाद करेगा और दुष्टों को वह तलवार के बश में कर देगा ॥
- ३० सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि सुनो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथिवी की छोर से उठेगी । उस समय यहोवा के मारे हुओं की लोथें पृथिवी की एक छोर से दूसरी छोर लों पड़ी रहेंगी उन के लिये कोई रोने पीटनेहारा न रहेगा और उन की लोथें न तो बटोरी जाएंगी न कबरों में रक्खी जाएंगी वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेंगी । हे चरवाहो हाय हाय करो और चिल्लाओ हे बलवन्त मेढो और बकरो राख में लोटो क्योंकि तुम्हारे बध होने के दिन आ चुके हैं और मैं मनभाऊ शरतन को नाई तुम्हारा सत्यानाश करूंगा । उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिये कोई स्थान रहेगा और न बलवन्त मेढे और बकरो भागने पाएंगे । चरवाहों की चिल्लाहट और बलवन्त मेढों और बकरो के मिमियाने का शब्द सुन पड़ता है क्योंकि यहोवा उन की चरार्ण को नाश करता है । और यहोवा के कोप भड़कने के कारण शांति के स्थान नाश हो जाएंगे जिन वासस्थानों में अब

(१) अनुमान है कि यह बाबेल का एक नाम है ।

शांति है वे नाश हो जाएंगे । युवा सिंह की नाई वह अपने ठौर को छोड़कर निकलता है क्योंकि अंधेर करने-हारी तलवार और उस के भड़के हुए कोप के कारण उन का देश उजाड़ हो गया ॥

## २६. योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाक़ीम के राज्य

के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुँचा कि, यहोवा यों कहता है कि यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के साम्हने जो यहोवा के भवन में दण्डवत् करने को आएँ वे वचन कह दे जिन के विषय उन से कहने की आशा मैं तुम्हें देता हूँ उन में से कोई वचन रख मत छोड़ । क्या जानिये वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से तिरें और मैं उन की उस हानि से जो उन के बुरे कामों के कारण करने की कल्पना करता हूँ रक्षताऊंगा । सो तू उन से कह यहोवा यों कहता है कि यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैं ने तुम को सुनवा दी है<sup>२</sup> न चलो, और न मेरे दास नबियों के वचनों पर कान धरो जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके<sup>३</sup> भेजता आया हूँ पर तुम न उन की नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शीलों के समान उजाड़ कर दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथिवी की सारी जातियों के लोग उस की उपमा दे देकर स्मय दिया करेंगे । अब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था तब याजक और नबी और सब साधारण लोग सुन रहे थे । और जब यिर्मयाह सब कुछ जिस के तारी प्रजा से कहने की आशा यहोवा ने दी थी कह चुका तब याजकों और नबियों और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उस को पकड़ लिया कि निश्चय तेरा प्राण-दण्ड होगा । तू न यहोवा के नाम से क्यों यह नबूवत की कि यह भवन शीलों के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उस में कोई न रह जाएगा । इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भाड़ लगाई ॥

यह बातें सुनकर यहूदा के हाकिम राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ गये और उस के नये फाटक में बैठ गये । तब याजकों और नबियों ने हाकिमों और सब लोगों से कहा यही मनुष्य प्राणदण्ड के योग्य है क्योंकि इस ने इस नगर के विरुद्ध ऐसी नबूवत की

(१) मूल में तुम्हारे साम्हने रक्खी है । (२) मूल में तपके उठके ।

है कि जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो ।  
 १२ तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा जो वचन तुम ने सुने हैं सो यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध नबूवत की रीति कहने के  
 १३ लिये भेजा दिया है । सो अब अपना चालचलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो तब यहोवा उस विपत्ति के विषय जिस की चर्चा  
 १४ उस ने तुम से की है पछुताएगा । देखो मैं तुम्हारे वश में हूँ जो कुछ तुम्हारे लेखे भला और ठीक हो सोइ मेरे साथ करो । यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे  
 १५ मार डालो तो अपने को और इस नगर और इस के निवासियों को निर्दोष के खूनी बनाओगे क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिये  
 १६ भेजा है । तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नाबियों से कहा यह मनुष्य प्राणदण्ड के योग्य नहीं क्योंकि उस ने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हम से  
 १७ कहा है । और देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मण्डली से कहा । यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोरसेती भीकायाह नबूवत करता था सो उस ने यहूदा के सारे लोगों से कहा सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि सियोन जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम डीह डी डीह हो जाएगा और भवनवाला पर्वत बनवाला स्थान हो जाएगा ।  
 १८ तथा यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने बा किसी यहूदी ने उस को कहीं मरवा डाला क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उस से विनती न की और तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने का कहा था उस के विषय क्या वह न पछुताया । ऐसा  
 २० करके हम अपने प्राणों की बड़ा हानि करेंगे । फिर शमायाह का पुत्र ऊरिय्याह नाम किर्यस्थारीम का एक पुरुष यहोवा के नाम से नबूवत करता था और उस ने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठाँक ऐसी ही  
 २१ नबूवत की जैसी यिर्मयाह ने अभी की है । और जब यहोवाकीम राजा और उस के सब वीरों और सब हाकिमों ने उस के वचन सुने तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया और ऊरिय्याह यह सुनकर डर के मारे मिस्र में भाग गया । सो यहोवाकीम राजा ने मिस्र में लोग भेजे अर्थात् अकबोर के पुत्र एलनातान  
 २३ को कितने और पुरुषों समेत मिस्र में भेजा । और वे

ऊरिय्याह को मिस्र से निकालकर यहोवाकीम राजा के पास ले आये और उस ने उसे तलवार से मरवाकर उस की लोथ का साधारण लोगों की कबरों में फेंकवा दिया । पर शापान का पुत्र अभीकाम यिर्मयाह का सहारा करने लगा और वह लोगों के वश में मार डालने के लिये दिया न गया ॥

## २७ योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोवाकीम के

राज्य के आरम्भ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा कि, वचन और आए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख । तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सीदोन के राजाओं के पास उन वृत्तों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आये हैं । और उन को उन के स्वामियों के लिये यह कहकर आशा देना कि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि अपने अपने स्वामी से यों कहो कि, पृथिवी को और पृथिवी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा से मैं ने बनाया और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ । सो अब मैं ने ये सब देश अपने दास बबेल के राजा नबूकदनेस्सर को आष दे दिये हैं और मैदान के जीवजन्तुओं को भी मैं ने उसे दिया है कि वे उस के अधीन रहें । और ये सब जातियाँ उस के और उस के पीछे उस के बेटे और पोते के अधीन तब लों रहेंगी जब लों उस के भी देश का दिन न आवे और बहुत सी जातियाँ और बड़े बड़े राजा उस से अपनी सेवा कराएंगे । सो जो जाति बा राज्य बबेल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो और उस का जूआ अपनी गर्दन पर न ले ले उस जाति को मैं तलवार महंगी और मरी का दण्ड तब लों देता रहूँगा जब लों उस को उस के हाथ के द्वारा न मिटा दूँ यहोवा की यही वाणी है । सो तुम लोग अपने नाबियों और भावों कहनेहारों और स्वप्न देखनेहारों और टोनहों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ जो तुम से कहते हैं कि तुम को बबेल के राजा के अधीन होना न पड़ेगा । क्योंकि वे तुम से झूठी नबूवत करते हैं जिस से तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आउ तुम को दूर करके नाश कर दूँ । पर जो जाति बबेल

(१) मूल में और भवन का पर्वत अरथ्य क ऊँचे स्थान ।

(२) जान पड़ता है कि यहोवाकीम की सन्ती सिदकिय्याह समझना चाहिये ।

- के राजा का जूआ अपनी गर्दन पर लेकर उस के अधीन रहे उस का मैं उसी के देश में रहने दूंगा और वह उस में खेती करती हुई बसी रहेगी यहोवा की यही वाणी है ॥
- १२ और यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैं ने ऐसी सब बातें कहीं कि अपनी प्रजा समेत तू बाबेल के राजा का जूआ अपनी गर्दन पर ले और उस के
- १३ और उस की प्रजा के अधीन रहकर जीता रह । जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बाबेल के राजा के अधीन न हो यह कहा है कि वह तखवार महंगी और मरी से नाश होगी जो फिर तू अपनी प्रजा समेत क्यों
- १४ मरना चाहता है । जो नबी तुझ से कहते हैं कि तुझ को बाबेल के राजा के अधीन हो जाना न पड़ेगा उन की मत सुन क्योंकि वे तुझ से झूठी नबूवत करते हैं ।
- १५ यहोवा की यह वाणी है कि मैं ने उन्हें नहीं भेजा वे मेरे नाम से झूठी नबूवत करते हैं और इस का फल यही होगा कि मैं तुझ को देश से निकाल दूंगा और तू उन नबियों समेत जो तुझ से नबूवत करते हैं नाश हो जाएगा ॥
- १६ फिर याजकों और साधारण लोगों से भी मैं ने कहा यहोवा यों कहता है कि तुम्हारे जो नबी तुम से यह नबूवत करते हैं कि यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बाबेल से लौटा दिये जाएंगे उन के वचनों का और कान मत धरो क्योंकि वे तुम से झूठी नबूवत
- १७ करते हैं । उन की मत सुनो बाबेल की राजा के अधीन होकर और सेवा करके जीते रहो यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए । और यदि वे नबी भी हों और यहोवा का वचन उन के पास हो तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करें कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गये हैं सो
- १९ बाबेल न जाने पाए । सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जो खंभे और पीतल का गंगाल और पाये और
- २० और पात्र इस नगर में रह गये हैं, जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब यह यहोवाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह का और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों का बंधुआ करके
- २१ यरूशलेम से बाबेल को ले गया, जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गये हैं उन के विषय इस्राएल का परमेश्वर
- २२ सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि, वे भी बाबेल में पहुंचाये जाएंगे और जब हों मैं उन की सुधि न लूं तब लो वही रहेंगे और तब मैं उन्हें ले आकर इस स्थान में फिर रखाऊंगा यहोवा की यही वाणी है ॥

## २८. फिर उसी बरस के अर्थात् यहूदा के

- राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे बरस के पांचवें महाने में अजूर का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का एक नबी था उस ने मुझ से यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के साम्हने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं ने बाबेल के राजा के जूए को तोड़ डाला है । यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बाबेल ले गया उन्हें मैं दो बरस के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा । और यहूदा का राजा यहोवाकीम का पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंधुए जो बाबेल का गये हैं उन का भी मैं इस स्थान में फेर ले आऊंगा क्योंकि मैं ने बाबेल के राजा के जूए को तोड़ दिया है यहोवा की यही वाणी है । यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के साम्हने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमेन यहोवा ऐसा ही करे जो बातें तू ने नबूवत करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबेल से इस स्थान में फिर आएंगे उन्हें यहोवा पूरा करे । तौभी मेरा यह वचन सुन जो मैं तुम्हें और सब लोगों को कह सुनाता हूं । जो नबी प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहिले हाते आये थे उन्होंने ने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के बिकर युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय नबूवत की थी । जो नबी कुशल के विषय नबूवत करे जब उस का वचन पूरा हो तब ही उस नबी के विषय निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भजा हुआ है । तब हनन्याह नबी के उस जूए को जो यिर्मयाह नबी की गर्दन पर था उतारके तोड़ दिया । और हनन्याह ने सब लोगों के साम्हने कहा यहोवा यों कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे दो बरस के भीतर बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के जूए को सब जातियों का गर्दन पर से उतारके तोड़ दूंगा । तब यिर्मयाह नबी चला गया । जब हनन्याह नबी ने यिर्मयाह नबी की गर्दन पर से जूआ उतारके तोड़ दिया उस के पीछे यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि, जाकर हनन्याह से यह कह कि यहोवा यों कहता है कि तू ने काठ का जूआ तो तोड़ दिया पर ऐसा करके तू ने उस की सन्ती लोहे का जूआ बना लिया है । क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जूआ रखता हूं कि बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहें और इन

- १९ पहिली रीति के अनुसार बस जाएगा । और वहां से धन्य कहने और आनन्द करने का शब्द सुन पड़ेगा और
- २० मैं उन का विभव बढ़ाऊंगा वे थोड़े न होंगे । फिर उन के लड़केवाले प्राचीन काल के समान होंगे और उन की मण्डली मेरे साम्हने स्थिर रहेगी और जितने उन पर
- २१ अन्धेर करते हैं उन को मैं दण्ड दूंगा । और उन का महापुरुष उन्हीं में से होगा और उन पर जो प्रभुता करेगा सो उन्हीं में से उत्पन्न होगा और मैं उसे अपने समीप बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा क्योंकि कौन है जो अपने जीव पर खेला है यहोवा की
- २२ यही वाणी है । उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा ॥
- २३ यहोवा की जलजलाहट की आंधी चलती है वह अति प्रचण्ड आंधी है वह दुष्टों के सिर पर बल से
- २४ लगेगी । जब लों यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके तब लों उस का भड़का हुआ कोप शान्त न होगा । अन्त के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे ॥

### ३१. उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों

- का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे यहोवा की यही वाणी है । यहोवा यों कहता है कि जो प्रजा तलवार से बच निकली जंगल में उन पर अनुग्रह हुआ मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिये तैयार हुआ २ ॥
- ३ यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझ से सदा प्रेम रखता आया हूँ इस कारण मैं ने तुझे
- ४ कष्ट करके खींच लिया है । हे इस्राएली कुमारी कन्या मैं तुझे फिर बसाऊंगा वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनन्द करनेहारों के बीच में नाचती
- ५ हुई निकलेगी । तू शोमरोन के पहाड़ों पर दाख की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे सो उन
- ६ के फल भी खाने पाएंगे ३ । क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिस में एप्रैम के पहाड़ी देश में के पहरूप पुकारेंगे कि उठो हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को
- ७ जाए । क्योंकि यहोवा यों कहता है कि याकूब की श्रेष्ठ जाति के कारण आनन्द से जयजयकार करो फिर ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो कि हे यहोवा अपनी प्रजा
- ८ इस्राएल के छूटे हुए लोगों का भी उद्धार कर । मैं उन

(१) मूल में न फिरगा । (२) मूल में चलूंगा ।

(३) मूल में साधारण भी ठहराएंगे ।

को उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथिवी की छोर छोर से इकट्ठे करूंगा और उन के बीच अन्धे लंगड़े गर्भवती और जननेहारी स्त्रियां भी आएंगी बड़ी मण्डली यहां लौट आएगी । वे आसू बहाते हुए आएंगे और गिड़- ९ गिड़ाते हुए मुझ से पहुंचाये जाएंगे और मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा कि वे ठोकर न खाने पाएंगे क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ और एप्रैम मेरा जेठा है ॥

हे जाति जाति के लोगो यहोवा का वचन सुनो १० और दूर दूर के द्वीपों में भी इस का प्रचार करा कहां कि जिस ने इस्राएलियों को तित्तर बित्तर किया था सोई उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उन की ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने भुण्ड की करता है । यहोवा ने ११ याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उस से अधिक बलवन्त है छुटकारा दिया है । सो वे सियोन १२ की चोटी पर आकर जयजयकार करेंगे और अनाज नया दाखमधु टटका तेल और भेड़ बकरियों और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान यहोवा से पाने के लिये तांता बांधकर चलेंगे और उन का जीव सींची हुई बारी के समान बनेगा और वे फिर कभी उदास न होंगे । उस समय उन में की कुमारियां नाचती हुई १३ आनन्द करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनन्द करेंगे क्योंकि मैं उन के शोक को दूर करके उन्हें आनन्दित करूंगा और शांति दूंगा और दुःख के बदले आनन्द दूंगा । और मैं याजकों के चिकनी वस्तुओं से १४ अति तृप्त करूंगा वरन मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से सन्तुष्ट होगी यहोवा की यही वाणी होगी ॥

यहोवा यह भी कहता है कि सुन रामा नगर में १५ विलाप और बिलक बिलक रोने का शब्द सुनने में आता है राहेल अपने लड़कों के लिये रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती क्योंकि वे जाते रहे । सो यहोवा यों कहता है कि रोने १६ पीटने और आसू बहाने से रुक जा क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलनेवाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे । यहोवा की यह वाणी है कि अन्त में तेरी १७ आशा पूरी होगी तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे । निश्चय मैं ने एप्रैम को ये बातें कहकर विलपत १८ सुना है कि तू ने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बड़बड़ की ती हुई जो निकाला न गया हो पर अब तू मुझे फेर तब मैं फिरूंगा क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है । मैं फिर जाने के पीछे पछताया और सिखाये जाने के १९

(४) मूल में महानद की नाई बहेंगे ।

पीछे छाती पीटी पुराने पापों को सोचकर मैं लजित  
२० हुआ और मेरे मुंह पर सियाही छा गई। क्या एप्रैम  
मेरा प्रिय पुत्र नहीं है क्या वह मेरा तुलारा लड़का  
नहीं है जब जब मैं उस के विरुद्ध बातें करता हूँ तब  
तब मुझे उस का स्मरण आता है इसलिये मेरा मन  
उस के कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर  
दया करूँगा यहोवा की यही वाणी है ॥

२१ हे इस्राएली कुमारी जिस राजमार्ग से तू गई थी  
उसी में खंभे और दण्डे खड़े कर और अपने इन नगरों  
२२ में लौट आने पर मन लगा। हे संग छोड़नेहारी कन्या  
तू कब लौं इधर उधर फिरती रहेगी यहोवा की तां एक  
नई सृष्टि पृथिवी पर प्रगट होगी अर्थात् नारी पुरुष को  
घेर लेगी ॥

२३ इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों  
कहता है कि जब मैं यहूदी बन्धुओं को उन के देश के  
नगरों में लौटाऊँगा तब उन में यह आशीर्वाद<sup>१</sup> फिर  
दिया जाएगा कि हे धर्मभरे वासस्थान हे पवित्र पर्वत  
२४ यहोवा तुझे आशिष दे। और यहूदा और उस के सब  
नगरों के लोग और किसान और चरवाहे<sup>२</sup> भी उस में  
२५ इकट्ठे बसेंगे। और मैं ने उनके हुए लोगों का जीव तुत  
किया और उदास लोगों के जीव को भर दिया है ॥

२६ इस पर मैं जाग उठा और देखा और मेरी नीन्द  
मुझे मीठी लगी ॥

२७ सुन यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं  
जिन में मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के लड़केवाले  
२८ और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊँगा<sup>३</sup>। और जिस प्रकार  
मे मैं सोच सोचकर उन को गिराता और ढाता और  
नाश करता और काट डालता और सत्यानाश ही करता था  
उसी प्रकार से मैं अब सोच सोचकर उन को रोपूँगा और  
२९ बढ़ाऊँगा यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों वे फिर  
न कहेंगे कि जंगली दाख खाई तो पुरखा लोगों ने पर  
३० दांत खट्टे हो गये हैं उन के वंश के। क्योंकि जो कोई  
जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे हर एक  
मनुष्य अपने ही अपने अधर्म के कारण मारा जाएगा ॥

३१ फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि सुन ऐसे  
दिन आते हैं कि मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से  
३२ नई वाचा बांधूँगा। वह उस वाचा के समान न होगी  
जो मैं ने उन के पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब

मैं उन का हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल  
लाया क्योंकि यद्यपि मैं उन का पति हुआ तभी उन्होंने  
ने मेरी यह वाचा तोड़ी। यहोवा की यह वाणी है कि जो ३३  
वाचा मैं उन दिनों के पीछे इस्राएल के घराने से बांधूँगा सो  
यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उन के मन में समवाऊँगा  
और उन के हृदय पर लिखूँगा और मैं उन का  
परमेश्वर ठहरूँगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और ३४  
तब से उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि  
यहोवा का ज्ञान सीखो क्योंकि यहोवा की यह वाणी  
है कि छोटे से लेकर बड़े लों वे सब के सब मेरा ज्ञान  
रक्खेंगे क्योंकि मैं उन का अधर्म क्षमा करूँगा और  
उन का पाप फिर स्मरण न करूँगा। जिस ने दिन को ३५  
प्रकाश देने के लिये सूर्य के और रात का प्रकाश देने के  
लिये चन्द्रमा और तारागण के नियम ठहराये और समुद्र को  
उछालता और उस की लहरों को गरजता है और जिस  
का नाम सेनाओं का यहोवा है सोई यहोवा यों कहता  
है कि, जब वे नियम मेरे साम्हने से टल जाएं तब ही ३६  
यह हां सकेगा कि इस्राएल का वंश मरे लेखे एक जाति  
ठहरने से सदा के लिये छूट जाए। यहांवा यों भी ३७  
कहता है कि जब ऊपर से आकाश मापा जाए और  
नीचे से पृथिवी की नेव खोद खोदकर पाई जाए तब ही  
मैं इस्राएल के सारे वंश के सब पापों के कारण उन से  
हाथ उठाऊँगा। सुन यहांवा की यह वाणी है कि ऐसे ३८  
दिन आते हैं कि जिन में यह नगर हननेल के गुम्मत से  
लेकर काने के फाटक लों यहांवा के लिये बनाया  
जाएगा। और मापने की रस्ती फिर आगे बढ़कर सीधी ३९  
गारेब पहाड़ी लों और वहां से घूमकर गाआ का पहुँ-  
चेगी। और लोथों और राख की सारी तराई और ४०  
किद्रान नाले लों जितने खेत हैं और घोड़ों के पूरवी  
फाटक के काने लों जितनी भूमि है सो सब यहांवा के  
लिये पवित्र ठहरेंगी वह नगर सदा लों फिर कभी न तो  
गिराया और न ढाया जाएगा ॥

३२. यहूदा के राजा सिदकिय्याह के

राज्य के दसवें बरस में जो  
नबूकदनेस्सर के राज्य का अठारहवां बरस था यहांवा की  
ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा। उस समय २  
बाबेल के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था  
और यिर्मयाह नबी यहूदा के राजा के पहरे के भवन के  
आंगन में कैद किया गया था। क्योंकि यहूदा के राजा ३  
सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैद किया कि तू ऐसी  
नबूवत क्यों करता है कि यहांवा यों कहता है कि सुनो

(१) मूल में वचन। (२) मूल में घूम घूमकर झुण्ड के चरानेहारे।

(३) मूल में घरानों में मनुष्य का बीज और पशु का बीज बोऊँगा।

(४) मूल में जाग जागकर।

- ४ मैं यह नगर बाबेल के राजा के बश में कर दूंगा सो वह इस को ले लेगा और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बचेगा वह बाबेल के राजा के बश में अवश्य ही पड़ेगा और वह और बाबेल का राजा आपस में आम्हने साम्हने बातें करेंगे और उन की चार आंखें होंगी, और वह सिदकिय्याह का बाबेल में ले जाएगा और यहोवा की वह वाणी है कि जब लों मैं उस की सुधि न लूं तब लों वह वहीं रहेगा सो तुम लोग कसदियों से लड़ा तो लड़ा पर तुम्हारे लड़ने से कुछ बन न पड़ेगा ॥
- ६ और यिर्मयाह ने कहा यहोवा का वचन मेरे पास ७ पहुंचा कि, सुन शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है सो तेरे पास यह कहने का आने पर है कि भेरा जो खेत अनातोत में है सो मोल ले क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है । सो यहोवा के कहे के अनुसार भेरा चचेरा भाई हनमेल पहेरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा भेरा जो खेत विन्यामीन देश के अनातोत में है सो मोल ले क्योंकि उस के स्वामी होने और उस के छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है सो तू उसे मोल ले । तब मैं ने जान लिया ९ कि वह यहोवा का वचन था । सो मैं ने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल लिया और उस का दाम चांदी के सत्तरह शेकेल तौलकर दिये । १० और मैं ने दस्तावेज में दस्तखत और मोहर हो जाने पर गवाहों के साम्हने वह चांदी कांटे में तौलकर उसे दी । ११ तब मोल लेने की दानों दस्तावेजें जिन में सब शतें लिखी हुई थीं और जिन में से एक पर मोहर थी और १२ दूसरी खुली थी उन्हें लेकर मैं ने, अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के साम्हने जिन्हों ने दस्तावेज में दस्तखत किया था और उन सब यहूदियों के साम्हने भी जो पहेरे के आंगन में बैठे हुए थे नेरिय्याह के पुत्र बारूक को जो महसेयाह का पोता था सोप १३ दिया । तब मैं ने उन के साम्हने बारूक को यह आज्ञा १४ दी कि, इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने यों कहा कि जिस पर मोहर की हुई है और जो खुली हुई है मोल लेने की दस्तावेजों का लेकर मिट्टी के बर्तन १५ में रख इसलिये कि ये बहुत दिन लों बनी रहें । क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि इस देश में घर और खेत और दाख की वारियां फिर मोल ली जाएंगी ॥
- १६ जब मैं ने मोल लेने की यह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथ में दी उस के पीछे मैं ने यहोवा

से यह प्रार्थना की कि, अहो प्रभु यहोवा तू ने तो बड़े १७ सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथिवी को बनाया और तेरे लिये कोई काम कठिन नहीं है । तू हजारों पर करुणा करता रहता और पितरों के अधर्म १८ का बदला उन के पीछे उन के वंश के लोगों को देता है । तू तो वह महान और पराक्रमी ईश्वर है जिस का नाम सेनाओं का यहोवा है । तू बड़ा युक्त करनेहारा १९ और सामर्थी काम करनेहारा है तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चालचलन पर लगी रहती है और तू एक एक को उस के चालचलन और करनी का फल भुगतता है । तू ने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किये और आज २० लों इस्राएलियों वरन सारे मनुष्यों के बीच करता आया है और इस भांति तू ने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन लों बना है । और तू अपनी प्रजा इस्रा- २१ एल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और यत्नी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से बड़े भयानक कामों के द्वारा निकाल लाया । फिर तू ने यह देश जिस के २२ देने की तू ने उन के पितरों से किरिया खाई थी और जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उन्हें दिया । और वे आकर इस के अधिकारी हुए तो भी तेरी नहीं २३ मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले वरन जो कुछ तू ने उन को करने की आज्ञा दी थी उस में से उन्होंने ने कुछ भी नहीं किया इस कारण तू ने उन पर यह सारी विपत्ति डाली है । अब इन धुसों का देख वे लोग इस २४ नगर के ले लेने के लिये आ गये हैं और यह नगर तलवार महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कस-दियों के बश में किया गया है और जो तू ने कहा था सो अब पूरा हुआ और तू इसे देखता भी है । तो भी २५ हे प्रभु यहोवा तू ने मुझ से कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले पर यह नगर कसदियों के बश में कर दिया गया है ॥

तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा २६ कि, मैं तो सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं क्या २७ कोई काम मेरे लिये कठिन है । सो यहोवा यों कहता २८ है कि देख मैं यह नगर कसदियों और बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के बश में कर देने पर हूं सो वह इस को ले लेगा । और जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं २९ वे आकर इस में आग लगाकर फूंक देंगे और जिन घरों की छतों पर उन्होंने ने बाल के लिये धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है वे घर जला दिये जाएंगे । क्योंकि इस्राएल और यहूदा जो ३० काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आये

हैं और इस्राएली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझ को  
 ३१ रिस ही रिस दिलाते आये हैं। यहोवा की यह वाणी है  
 कि यह नगर जब से बसा तब से आज के दिन लों मेरे  
 कोप और जलजलाहट के भड़कने का कारण हुआ है  
 ३२ सो अब मैं इस को अपने साम्हने से इस कारण दूर  
 करूंगा, कि इस्राएल और यहूदा अपने राजाओं हाकिमों  
 याजकों और नवियों समेत क्या यहूदा देश के क्या  
 यरूशलेम के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके  
 ३३ मुझ को रिस दिलाते आये हैं। उन्होंने ने तो मेरी  
 ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है मैं उन्हें बड़े यत्न से  
 सिखाता आया हूँ पर उन्होंने ने मेरी शिक्षा नहीं मानी।  
 ३४ बरन जो भवन मेरा कहावता है उस में भी उन्होंने ने  
 अपनी धिनौनी वस्तुएं स्थापन करके उसे अशुद्ध किया  
 ३५ है। और उन्होंने ने हिनोमियों की तराई में बाल के ऊंचे  
 ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलोक के  
 लिये होम किये जिस की आज्ञा मैं ने कभी नहीं दी और  
 न यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा धिनौना काम  
 किया जाए जिस से यहूदी लोग पाप में फँसें ॥  
 ३६ पर अब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के  
 विषय जिसे तुम लोग तलवार महंगी और मरी के द्वारा  
 बाबेल के राजा के वश में पड़ा हुआ कहते हो यों कहता  
 ३७ है कि, सुनो मैं उन को उन सब देशों से जिन में कोप  
 और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर उन्हें बरबस  
 कर दूंगा लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा  
 ३८ और निडर करके बसा दूंगा। और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे  
 ३९ और मैं उन का परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं उन का एक  
 ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा  
 भय मानते रहें जिस से उन का और उन के पीछे उन के  
 ४० वंश का भी भला हो। और मैं उन से यह वाचा  
 बांधूंगा कि मैं कभी तुम्हारा संग छोड़कर तुम्हारा  
 भला करना न छोड़ूंगा। और मैं अपना भय उन के  
 मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझ से अलग  
 ४१ होना न चाहेंगे। और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उन  
 का भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में  
 ४२ अपने सारे मन और सारे जी से बसा दूंगा। देख  
 यहोवा यों कहता है कि जैसे मैं ने अपनी इस प्रजा पर  
 यह सारी बड़ी विपत्ति डाल दी वैस ही निश्चय इन  
 से वह सारी भलाई भी करूंगा जिस के करने का  
 ४३ बचन मैं ने दिया है। सो यह देश जिस के विषय तुम  
 लोग कहते हो कि यह तो उजाड़ हुआ है इस में न तो

(१) मूल में तबके उठकर ।

(२) मूल में पीछा ।

मनुष्य रह गये हैं और न पशु यह तो कसदियों के वश  
 में पड़ चुका है इसी में खेत फिर मोल लिये जाएंगे।  
 विन्यामीन के देश में और यरूशलेम के आस पास ४४  
 और यहूदा देश के अर्थात् पहाड़ी देश नीचे के देश  
 और दक्खिन देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर  
 खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मोहर  
 करेंगे क्योंकि मैं उन के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा।  
 यहोवा की यही वाणी है ॥

### ३३. जिस समय विर्मयाह पहर के आगमन

में बन्द ही रहा उस समय  
 यहोवा का वचन दूसरी बार उस के पास पहुँचा कि,  
 यहोवा जो पूरा करनेवाला है यहोवा जो उस के स्थिर ९  
 होने की तैयारी करता है उस का नाम यहोवा है, वह ३  
 यह कहता है कि मुझ से प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन  
 कर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें  
 तू अब नहीं समझता ॥

क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर ४  
 के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय जो  
 इसलिये गिराये जाते हैं कि धुसें और तलवार के ५  
 साथ सुभीते से लड़ सकें यों कहता है। कसदियों से  
 युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं पर मैं कोप और  
 जलजलाहट में आकर उन को मरवाऊंगा और उन की  
 लोथें उसी स्थान में भरवा दूंगा क्योंकि उन की दुष्टता के  
 कारण मैं ने इस नगर से मुख फेर लिया है। सुन मैं इस ६  
 नगर का इलाज करके इस के वासियों को चंगा करूंगा।  
 और उन पर पूरी शान्ति और सच्चाई प्रगट करूंगा।  
 और मैं यहूदा और इस्राएल के बन्धुओं को लौटा ले ७  
 आऊंगा और उन्हें पहिले की नाई बनाऊंगा। और मैं ८  
 उन को उन के सारे अधर्म और पाप के काम से जो  
 उन्होंने ने मेरे विरुद्ध किये हैं शुद्ध करूंगा और उन्होंने ने  
 जितने अधर्म और पाप और अपराध के काम मेरे  
 विरुद्ध किये हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। क्योंकि वे ९  
 वह सारी भलाई सुनेंगे जो मैं उन की करूंगा और उस  
 सारे कल्याण और सारी शान्ति की चर्चा सुनकर जो मैं  
 उन से करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे वह पृथिवी की उन  
 जातियों के लेखे मेरे लिये हर्षानेवाला और स्तुति  
 और शोभा का कारण हो जाएगा। यहोवा यों कहता १०  
 है कि यह स्थान जिस के विषय तुम लोग कहते हो कि  
 यह तो उजाड़ हो गया है इस में न तो मनुष्य रह गया  
 है और न पशु अर्थात् यहूदा देश के नगर और यरूश-  
 लेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी हैं कि उन में न

(३) मूल में गढ़ता । (४) मूल में कोठों से बिरों ।



- ११ तो कोई मनुष्य रहता है और न कोई पशु, इन्हीं में हर्ष और आनन्द का शब्द दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहनेहारों का शब्द फिर सुन पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि यहोवा भला है और उस की करुणा सदा की है और यहोवा के भवन में धन्यवादवलि ले आनेहारों का भी शब्द सुनाई देगा क्योंकि मैं इस देश की दशा पहिले की नाई ज्यों की त्यों कर दूंगा यहोवा का यही वचन है ।
- १२ सेनाओं का यहोवा कहता है कि सब गांवों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इस में न तो मनुष्य रह गया है और न पशु इसी में भेड़ बकरियां बैठानेहारे
- १३ चरवाहे फिर रहेंगे । क्या पहाड़ी देश के क्या नीचे के देश के क्या दक्खिन देश के नगरों में क्या बिन्यामीन देश में क्या यरूशलेम के आस पास निदान यहूदा देश के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिनकर चराईं जायेंगी यहोवा का यही वचन है ॥
- १४ यहोवा की यह भी वाणी है कि सुन ऐसे दिन आते हैं कि कल्याण का जो वचन मैं ने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय कहा है उसे पूरा करूंगा ।
- १५ उन दिनों में और उस समय में मैं दाऊद के वंश में धर्म का एक पत्तल उगाऊंगा और वह इस देश में
- १६ न्याय और धर्म के काम करेगा । उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उस का यह नाम रखवा जाएगा अर्थात् यहोवा हमारी
- १७ धार्मिकता । यहोवा यों कहता है कि दाऊद के कुल में इस्राएल की घराने की गद्दी पर विराजनेहारे अटूट
- १८ रहेंगे । और लेवीय याजकों के कुलों में दिन दिन मेरे लिये होमबलि चढ़ानेहारे और अबबलि जलानेहारे और मेलबलि चढ़ानेहारे अटूट रहेंगे ॥
- १९ फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास
- २० पहुंचा कि, यहोवा यों कहता है कि मैं ने दिन और रात के विषय जो वाचा बांधी है उस को जब तुम ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हों,
- २१ तब ही जो वाचा मैं ने अपने दास दाऊद के संग बांधी है कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजनेहारे अटूट रहेंगे मो टूट सकेगी और जो वाचा मैं ने अपनी सेवा टहल करनेहारे लेवीय याजकों के संग बांधी है वह भी
- २२ टूट सकेगी । आकाश की सेना को गिनती और समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता

इसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपनी सेवा टहल करनेहारे लेवीयों को बढ़ाकर अनर्गलित कर दूंगा ॥

फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास २३ पहुंचा कि, क्या तू ने नहीं सोचा कि ये लोग यह क्या २४ कहते हैं कि जो दो कुल यहोवा ने चुन लिये थे उन दोनों से उस ने अब हाथ उठाया है यह कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं यह जाति हमारे लेखे जाती रहेगी । यहोवा यों कहता है कि यदि दिन और २५ रात के विषय मेरी वाचा अटल न रहे और यदि आकाश और पृथिवी के नियम मेरे ठहराये हुए न रह जाएं, तो २६ मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा और इनाहीम इस-हाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिये अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को फिर न उठ-राऊंगा परन्तु इस के उलटे मैं उन पर दया करके उन को बन्धुआई से लौटा लाऊंगा ॥

### ३४. जब बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी सारी सेना समेत और

पृथिवी के जितने राज्य उस के वश में थे उन सबों के लोगों समेत भी यरूशलेम और उस के सब गांवों से लड़ रहा था तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा २ यों कहता है कि जाकर यहूदा के राजा सिदकियाह से कह कि यहोवा यों कहता है कि सुन मैं इस नगर को बाबेल के राजा के वश में कर देने पर हूं और वह इसे फूंकवा देगा । और तू उस के वंश से बच न ३ निकलेगा निश्चय पकड़ा जाएगा और उस के वश में कर दिया जावेगा और तेरी और बाबेल के राजा की चार आंखें होंगी और आंखने साम्हने बातें करोगे । और तू बाबेल को जाएगा । तौभी हे यहूदा के राजा ४ सिदकियाह यहोवा का यह भी वचन सुन जो यहोवा तेरे विषय कहता है कि तू तलवार से मारा न जाएगा, तू शान्ति के साथ मरेगा और जैसा तेरे पितरों के लिये ५ अर्थात् जो तुझ से पहले राजा थे उन के लिये सुगंध द्रव्य जलाया गया वैसा ही तेरे लिये भी जलाया जाएगा और लोग यह कहकर कि हाय मेरे प्रभु तेरे लिये छ्वाती पाटेंगे यहोवा की यही वाणी है । ये सब ६ वचन यिर्मयाह नबी ने यहूदा के राजा सिदकियाह से यरूशलेम में उस समय कहे, जब बाबेल के राजा ७ की सेना यरूशलेम से और यहूदा के जितने नगर बच गये थे उन से अर्थात् लाकीश और अजेका से लड़ रही

(१) मूल में क्योंकि मैं देश की बन्धुआई में लौटा लाऊंगा ।

(२) मूल में आने चलाई ।

थी । क्योंकि यहूदा के जो गढ़वाले नगर थे उन में से केवल वे ही रह गये थे ।

- ८ यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास इस के पीछे आया कि सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बन्वाई कि दासों के स्वाधीन होने का इस आशय का प्रचार किया जाए, कि सब लोग अपने अपने दास दासी को जो इब्री वा इब्रिन हों स्वाधीन करके जाने दें और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा न कराए । तब तो सब हाकिमों और सारी प्रजा ने यह वाचा बांधकर कि हम अपने अपने दास दासियों का स्वाधीन करके छोड़ेंगे और फिर उस से अपनी सेवा न कराएंगे उस वाचा के अनुसार किया और उन को छोड़ दिया । पर पीछे से वे फिर और जिन दास दासियों को उन्होंने ने स्वाधीन करके जाने दिया था उन को फिर अपने वश में लाकर दास दासी बना लिया ।
- १२ तब यहोवा की आर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा
- १३ कि, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुम से यां कहता है कि जिस समय मैं तुम्हारे पितरों को दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निकाल ले आया उस समय मैं ने तो आप उन से यह कहकर वाचा बांधी कि, तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए उस को तुम सातवें बरस में छोड़ देना, छः बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे पर पीछे तुम उस को स्वाधीन करके अपने पास से जाने देना पर तुम्हारे पितरों ने मेरी न सुनी न मेरी आर कान लगाया । तुम अभी फिर तो थे और अपने अपने भाई को स्वाधीन कर देने का प्रचार कराके जो काम मेरे लेखे भला है उसे तुम ने किया भी था और जो भवन मेरा कहावता है उस में मेरे साम्हने वाचा भी बांधी थी । पर अब तुम ने फिरके मेरा नाम इस रीति अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वाधीन करके उन की इच्छा पर छोड़ चुके थे उन्हें तुम ने फिर अपने वश में कर लिया है और वे तुम्हारे दास दासियां फिर बन गये हैं । इस कारण यहोवा यां कहता है कि तुम ने जो मेरी आशा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वाधीन होने का प्रचार नहीं किया सो यहोवा की यह वाणी है कि सुनो मैं तुम्हारे इस प्रकार के स्वाधीन होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार मरी और महंगी के वश में पड़े और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृथिवी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरो, और जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो वाचा उन्होंने ने मेरे साम्हने और बछड़े को दो भाग करके उस के दोनों अंशों के बीच होकर गये पर

उस के वचनों को पूरा न किया, यहूदा देश और यरू- १९ शलेम नगर के हाकिम और खोजे और याजक और साधारण लोग जो बछड़े के अंशों के बीच होकर गये थे, उन को मैं उन के शत्रुओं अर्थात् उन के प्राण के खोजियों के वश कर दूंगा और उन की लांघें आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगी । और मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उस के हाकिमों को उन के शत्रुओं उन के प्राण के खोजियों अर्थात् बाबेल के राजा की सेना के वश में जां तुम्हारे साम्हने से चली गई है कर दूंगा । यहोवा की यह वाणी है कि सुनो मैं उन को आज्ञा देकर इस नगर के पास लौटा ले आजंगा और वे इस से लड़कर इसे ले लेंगे और फूंक देंगे और यहूदा के नगरों को मैं ऐसा उजाड़ कर दूंगा कि कोई उन में न रहेगा ।

### ३५. योशियाह के पुत्र यहूदा के

राजा यहोयाकीम के दिनों में यहोवा की आर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि, रेकावियों के घराने के पास जाकर उन से बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले आकर दाखमधु पिला । तब मैं याजक्याह को जो हवस्सिन्याह का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था और उस के भाइयों और सब पुत्रों को निदान रेकावियों के सारे घराने को लेकर, यिन्दल्याह का पुत्र हानान जो परमेश्वर का एक जन था उस के पुत्रों की यहोवा के भवन में उस कोठरी में आया जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी जो शल्लूम के पुत्र डेवदी के रखवाल मासेयाह की कोठरी के ऊपर थी । तब मैं ने रेकावियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हण्डे और कटोरे देकर कहा दाखमधु पीओ । उन्होंने ने कहा हम दाखमधु न पीएंगे क्योंकि रेकाव के पुत्र योनादाब ने जां हमारा पुरखा था हम को यह आज्ञा दी थी कि तुम सदा लौं दाखमधु न पीना न तुम न तुम्हारे वंश का कोई कुछ दाखमधु पीए । और न घर बनाना न बीज बोना न अपने जीवन भर तंबुओं ही में रहा करना इस से जिस देश में तुम परदेशी हो उस में बहुत दिन लौं जीते रहोगे । सो हम रेकाव के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उस की सारी आज्ञाओं के अनुसार करते हैं न तो हम अपने जीवन भर कुछ दाखमधु पीते हैं और न हमारी स्त्रियां वा बेटे बेटियां पीती हैं । और न हम घर बनाकर उन में रहते हैं न दाख की बारी न खेत न बीज रखते हैं । हम तंबुओं ही में १०

रहा करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की मानकर उस की सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं ।

- ११ परन्तु जब बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर ने इस देश पर चढ़ाई की तब हम ने कहा चलो कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाएं इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं ॥
- १२ तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा
- १३ कि, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जाकर यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह यहोवा की यह बाणी है कि
- १४ क्या तुम शिन्ना मानकर मेरी न सुनोगे । देखो रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने बंश को दी थी कि तुम दाखमभु न पीना सो तो मानी गई है यहां लों कि आज के दिन लों भी वे लोग कुछ नहीं पीते वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं पर यद्यपि मैं तुम से बड़ा यत्न करके कहता आया हूं तौभी तुम ने मेरी
- १५ नहीं सुनी । मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूं कि अपनी बुरी चाल से फिरों और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उन की उपासना मत करो तब तुम इस देश में जो मैं ने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम को भी दिया है बसे रहने पाओगे पर तुम
- १६ ने मेरी ओर कान नहीं लगाया न मेरी सुनी है । देखो रेकाब के पुत्र योनादाब के बंश ने तो अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया पर तुम ने मेरी नहीं सुनी ।
- १७ इसलिये सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यों कहता है कि सुनो यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैं ने चर्चा की है सो उन पर अब डालता हूं क्योंकि मैं ने उन को सुनाया पर उन्हों ने नहीं सुना और मैं ने उन को बुलाया
- १८ पर वे नहीं बोले । और यिर्मयाह ने रेकाबियों के घराने से कहा इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुम से यों कहता है कि तुम ने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी वरन उस की सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उस ने कहा
- १९ उस के अनुसार काम किया है, इसलिये इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि रेकाब के पुत्र योनादाब के बंश में ऐसा जन सदा पाया जाएगा जो मेरे सन्मुख खड़ा रहे ॥

(१) मूल में तबके उठकर ।

### ३६. फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा

यहोवाकीम के राज्य के चौथे बरस में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैं ने तुम्ह से योशिय्याह के दिनों से लेकर अर्थात् जब मैं तुम्ह से बातें करने लगा आज के दिन लों इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं सब को उस में लिख । क्या जानिये यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना करता हूं अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उन के अधर्म और पाप को क्षमा करूं । सो यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उस ने यिर्मयाह से कहे थे उस के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिये । फिर यिर्मयाह ने बारूक से कहा मैं तो रुका हुआ हूं मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता । सो तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उस के जो वचन तू ने मुझ से सुन कर लिखे हैं सो पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उन को भी पढ़ सुनाना । क्या जानिये वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें क्योंकि जो कोप और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है सो यड़ी है । यिर्मयाह नवी की इस आज्ञा के अनुसार करके नेरिय्याह का पुत्र बारूक ने यहोवा के भवन में उस के वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाये ॥

फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोवाकीम के राज्य के पांचवें बरस के नौवें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आये थे उन्हों ने यहोवा के साम्हने उपवास करने का प्रचार किया । तब बारूक ने शापान का पुत्र गमर्याह जो प्रधान था उस की जो कोठरी ऊपरले आंगन में यहोवा के भवन के नये फाटक के पास थी यहोवा के भवन में सब लोगों को यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाये । तब शापान का पुत्र गमर्याह का पुत्र मीकायाह यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुनकर, राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया और क्या देखा कि यहां एलीशामा प्रधान और शमायाह का पुत्र दलायाह और अबबोर का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र गमर्याह और हनन्याह का पुत्र सिदकिय्याह और सब हाकिम बैठे हुए हैं । और मीकायाह ने जितने वचन उस समय सुने थे जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़

- १४ सुनाया था सो सब बर्णन किये । उन्हें सुनकर सब हाकिमों ने बारुक के पास यहूदी को जो नतन्याह का पुत्र और शैलेम्याह का पोता और कूशी का परपोता या यह कहने को भेजा कि जिस पुस्तक में से तू ने सब लोगों को पढ़ सुनाया सो लेता आ तो नेरिव्याह का पुत्र बारुक वह पुस्तक हाथ में लिये हुए उन के पास आया । तब उन्होंने ने उस से कहा बैठ और हमें पढ़ सुना सो बारुक ने उन को पढ़ सुना दिया ।
- १६ और जब वे उन सब बचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे और बारुक से कहा निश्चय हम राजा से इन सब बचनों का बर्णन करेंगे ।
- १७ फिर उन्होंने ने बारुक से कहा हम से कह कि तू ने ये सब बचन उस के मुख से सुनकर किस प्रकार से लिखे ।
- १८ बारुक ने उन से कहा वह ये सब बचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं इन्हें पुस्तक में त्वाही से लिखता गया । तब हाकिमों ने बारुक से कहा जा तू और विर्मयाह दोनों छिप जाओ और कोई न जाने कि तुम कहाँ हो । तब वे पुस्तक को ऐलीशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आये और राजा को वे सब बचन कह सुनाये । तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिये भेजा सो उस ने उसे ऐलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हाकिम राजा के आस पास खड़े थे उन को भी पढ़ सुना दिया । और राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था क्योंकि नौवां महीना था और उस के साम्हने खंगेठी जल रही थी । सो जब यहूदी तीन चार कोठे पढ़ चुका तब उस ने उसे चाकू से काटा और जो आग खंगेठी में थी उस में फेंक दिया सो खंगेठी की आग में सारी पुस्तक जलकर भस्म हो गई । और कोई न थरथराया और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े अर्थात् न तो राजा ने और न उस के कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब बचन सुने थे । पर एलनातान और दलायाह और गमर्याह ने राजा से बिनती की थी कि पुस्तक को न जला तौभी उस ने उन की न सुनी । राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अश्रीएल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र शैलेम्याह को आज्ञा दी कि बारुक लेखक और विर्मयाह नबी को पकड़ ले आओ पर यहोवा ने उन को छिपा रक्खा ॥
- २७ जब राजा ने उन बचनों की पुस्तक को जो बारुक ने विर्मयाह के मुख से सुन सुनकर लिखे थे जला दिया तब के पीछे यहोवा का यह बचन विर्मयाह के पास पहुंचा

कि, फिर एक और पुस्तक लेकर उस में यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहिली पुस्तक के सारे बचन लिख दे । और यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय कह कि यहोवा यों कहता है कि तू ने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया है कि तू ने उस में यह क्यों लिखा है कि बाबेल का राजा निश्चय आकर इस देश को नाश करके ऐसा करेगा कि उस में न तो मनुष्य रह जाएगा न पशु । इसलिये यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय यों कहता है कि उस का कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उस की लोथ ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को घाम में और रात को पाले में पड़ी रहेगी । और मैं उस को और उस के वंश और कर्मचारियों को अन्नधर्म का दण्ड दूंगा और जितनी विपत्ति मैं ने उन पर और यरुशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है पर उन्होंने ने सच नहीं माना उन सब को मैं उन पर डालूंगा । सो विर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिव्याह के पुत्र बारुक लेखक को दी और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी उस में के सब बचनों को बारुक ने विर्मयाह के मुख से सुन सुनकर उस में लिख दिया और उन बचनों में उन के समान और भी बहुत से बढ़ाये गये ॥

### ३७ और यहोयाकीम के पुत्र कोन्याह

के स्थान पर योशियाह का पुत्र सिदकियाह राज्य करने लगा क्योंकि बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था । और न तो उस ने और न उस के कर्मचारियों ने न साधारण लोगों ने यहोवा के बचनों को जो उस ने विर्मयाह नबी के द्वारा कहा था मान लिया ॥

सिदकियाह राजा ने शैलेम्याह के पुत्र यहूकल और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को विर्मयाह नबी के पास यह कहने के लिये भेजा कि हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर । उस समय विर्मयाह बन्दीगृह में डाला न गया था सो लोगों के बीच वह आया जाया करता था । और फिरौन की सेना मिस्र से निकली थी सो जो कसदी यरुशलेम को घेरे हुए थे वे उस का समाचार सुनकर यरुशलेम के पास से उठ गये । तब यहोवा का यह बचन विर्मयाह नबी के पास पहुंचा कि, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि यहूदा के जिस राजा ने तुम को प्रार्थना कराने के लिये मेरे पास भेजा है उस से बोलो कि सुन फिरौन की

जो सेना तुम्हारी सहायता के लिये निकली है सो अपने देश भिन्न में लौट जाएगी । और कसदी फिर आकर इस नगर से लड़ेंगे और इस को ले लेंगे और फूंक देंगे ।

९ यहोवा यों कहता है कि तुम यह कहकर अपने अपने मन में धोखा न खाओ कि कसदी हमारे पास से निश्चय चले गये हैं क्योंकि वे नहीं चले गये । सुनो यदि तुम ने कसदियों की सारी सेना को जो तुम से लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उन में से केवल घायल लोग रह जाते तौभी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते ॥

११ जब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के डर के मारे यरूशलेम के पास से उठ गई, तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिये जा रहा था कि वहां से और लोगों के संग अपना अंश ले । जब वह बिन्यामीन के फाटक में था तब यिरिम्याह नामक पहरेवालों का एक सरदार वहां था जो शोलेम्याह का पुत्र और इनन्याह का पोता था सो उस ने यिर्मयाह नबी को यह कहकर पकड़ लिया कि तू कसदियों के पास भागा जाता है । यिर्मयाह ने कहा यह झूठ है मैं कसदियों के पास भागा नहीं जाता पर यिरिम्याह ने उस की न मानी सो वह उस को पकड़कर हाकिमों के पास ले गया । तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान का घर जो बन्दीगृह था उस में डलवा दिया क्योंकि उन्होंने ने उसी को साधारण बन्दीगृह किया था । जब यिर्मयाह उस तलबार में जिस में कई एक कोठरियां थीं आकर वहां रहने लगा उस के बहुत दिन पीछे, सिदकिय्याह राजा ने उस को बुलवा भेजा और अपने भवन में छिपकर यह प्रश्न किया कि क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है यिर्मयाह ने कहा हां पहुंचा तो है वह यह है कि तू बाबेल के राजा के वश में कर दिया जाएगा । फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा मैं ने तेरा और तेरे कर्मचारियों का और तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझ को बन्दीगृह में डलवाया है । और तुम्हारे जो नबी तुम से नक़्बत करके कहा करते थे कि बाबेल का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई न करेगा सो अब कहां रहे । अब हे मेरे प्रभु हे राजा मेरी प्रार्थना तुझ से ग्रहण की जाए कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज नहीं तो वहां मर जाऊंगा । सो सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रक्खा गया और जब लो नगर में की सब रोटी मुक न गई तब लो उस को रोटीवालों के हाट

में से दिन दिन एक रोटी दी जाती थी । सो यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा ॥

### ३८. फिर

जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था उन को मत्सान का पुत्र शफन्याह और पशहूर का पुत्र गदल्याह और शोलेम्याह का पुत्र मूकल और मत्कियाह का पुत्र पशहूर ने सुना कि, यहोवा यों कहता है कि जो कोई इस नगर में रहे सो तलवार महंगी और मरी से मरेगा पर जो कोई कसदियों के पास निकल भागे सो अपना प्राण बचा कर जीता रहेगा । यहोवा यों कहता है कि यह नगर बाबेल के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इस को ले लेगा । सो उन हाकिमों ने राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल क्योंकि वह जो इस नगर में रहे हुए योद्धाओं और और सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है इस से उन के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं और वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं बुराई ही चाहता है । सिदकिय्याह राजा ने कहा सुनो वह तो तुम्हारे वश में है क्योंकि राजा ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके । तब उन्होंने ने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मत्किय्याह के उस गढ़ में जो पहरे के आंगन में था रस्तियों से उतार के डाल दिया और उस गढ़ में दलदल था सो यिर्मयाह कीचड़ में घस गया । उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था सो जब एबेदमेलोक कृशी ने जो राजभवन में एक खोजा था सुना कि उन्होंने ने यिर्मयाह को गढ़ में डाल दिया, तब एबेदमेलोक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा कि, हे मेरे स्वामी हे राजा उन लोगों ने यिर्मयाह नबी से जो कुछ किया है सो बुरा किया है उन्होंने ने उस को गढ़ में डाल दिया नगर में कुछ रोटी नहीं रही सो जहां वह है वहां वह भूख से मर जाएगा । तब राजा ने एबेदमेलोक कृशी को यह आज्ञा दी कि यहां से तीस पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह नबी को मर जाने से पहिले गढ़ में से निकाल । सो एबेदमेलोक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन में के भण्डार के तलबार में गया और वहां से पुराने फटे हुए कपड़े और पुराने सड़े चियड़े ले कर उस गढ़ में यिर्मयाह के पास रस्तियों से उतार दिये । और एबेदमेलोक कृशी ने यिर्मयाह से कहा ये पुराने फटे कपड़े और सड़े चियड़े अपनी कांखों में रस्तियों के नीचे रख ले सो यिर्मयाह ने वैसा ही किया । तब उन्होंने ने यिर्मयाह को रस्तियों से खींचकर गढ़ में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा ॥

- १४ सिदकिय्याह राजा ने बिर्मयाह नबी को अपने पास यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में बुलवा मेजा और राजा ने बिर्मयाह से कहा मैं तुझ से एक बात पूछता हूँ सो
- १५ मुझ से कुछ न छिपा । बिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा यदि मैं तुम्हें बताऊँ तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा और चाहे मैं तुम्हें सम्मति दूँ तो भी तू मेरी न मानेगा ।
- १६ तब सिदकिय्याह राजा ने छिपकर बिर्मयाह से किरिया खाई कि यहोवा जिस ने हमारा यह जीव रचा उस के जीवन की सोह मैं न तो तुम्हें मरवा डालूँगा और न उन मनुष्यों के वश में जो तेरे प्राण के खोजी हैं कर दूँगा । सो बिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यों कहता है कि तू बाबेल के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूँका न जाएगा और तू अपने घराने
- १८ समेत जीता रहेगा । पर यदि तू बाबेल के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूँक देंगे और
- १९ तू उन के हाथ से बच न निकलेगा । सिदकिय्याह ने बिर्मयाह से कहा जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गये हैं उन से मैं डरता हूँ ऐसा न हो कि मैं उन के वश में कर दिया जाऊँ और वे मुझ से ठट्टा करें ।
- २० बिर्मयाह ने कहा तू उन के वश में कर दिया न जाएगा जो कुछ मैं तुझ से कहता हूँ उसे यहोवा की बात समझ कर सुन ले तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण
- २१ बचेगा । और यदि तू निकल जाने को नकारे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है सो यह है कि,
- २२ सुन यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियाँ रह गई हैं सो बाबेल के राजा के हाकिमों के पास निकाल कर पहुँचाई जाएंगी और वे उस से कहेंगी तेरे मित्रों ने तुम्हें बहकाया और उन की इच्छा पूरी हो गई अब तेरे
- २३ पाँव कीच में धस गये वे पीछे फिर गये हैं । फिर तेरी सब स्त्रियाँ और लड़केवाले कसदियों के पास निकाल कर पहुँचाए जाएंगे और तू कसदियों के हाथ से न बचेगा तू पकड़कर बाबेल के राजा के वश में कर दिया जाएगा और इस नगर के फूँके जाने के कारण तू ही
- २४ ठहरेगा । सिदकिय्याह ने बिर्मयाह से कहा इन बातों
- २५ को कोई न जानने पाए और तू मारा न जाएगा । यदि हाकिम लोग यह सुनकर कि मैं ने तुझ से बातचीत की है तेरे पास आकर कहने लगें इसमें बता कि तू ने राजा से क्या कहा हम से कोई बात न छिपा और हम तुम्हें मरवा न डालेंगे और यह भी बता कि

राजा ने तुझ से क्या कहा, तो तू उन से कहना कि मैं ने राजा से गिड़गिड़ा कर बिमती की कि मुझे योनातान के घर में फिर न मेज नहीं तो वहाँ मर जाऊँगा । फिर सब हाकिमों ने बिर्मयाह के पास आकर पूछा और जैसा राजा ने उस को आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही उस ने उन को उत्तर दिया सो वे उस से और कुछ न बोले और यह भेद न खुला । इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया उस दिन लों बह पहर के आंगन ही में रहा ॥

### ३९. यहूदा के राजा

सिदकिय्याह के राज्य के नौवें बरस के दसवें महीने में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया । और सिदकिय्याह के राज्य के ग्यारहवें बरस के चौथे महीने के नौवें दिन को उस नगर की शहरपनाह तोड़ी गई । सो जब यरूशलेम ले लिया गया तब नेर्गल-सरेसेर और समगर्नबो और खोजों का प्रधान सर्बकीम और मगों का प्रधान नेर्गलसरेसेर आदि बाबेल के राजा के सब हाकिम आकर बीच के फाटक में बैठ गये । जब यहूदा के राजा सिदकिय्याह और सब योद्धाओं ने उन्हें देखा तब रात ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनों भीतों के बीच के फाटक से होकर नगर से निकल भागते हुए चले और अराबा का मार्ग लिया । और कसदियों की सेना ने उन को खदेड़कर सिदकिय्याह को यरीहो के अराबा में जा लिया और उस को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमात देश के रिबला में ले गये और उस ने वहाँ उस के दरद की आज्ञा दी । तब बाबेल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को रिबला में उसी के साम्हने घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया । और सिदकिय्याह की आँखों को उस ने फुड़वा डाला और उस को बाबेल ले जाने के लिये बेड़ियों से जकड़वा रक्खा । और राजभवन को और प्रजा के घरों को कसदियों ने आग लगाकर फूँक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया । तब जल्लादों का प्रधान नबूजरदान प्रजा के बचे हुएों को जो नगर में रह गये और जो लोग उस के पास भाग गये थे उन को अर्थात् प्रजा में से जितने रह गये उन सब को बन्धुआ करके बाबेल को ले गया । परन्तु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे कि उन के पास कुछ न था उन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान यहूदा देश में छोड़ गया और जाते समय उन को दाख की बारियाँ और खेत दिये । और बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने जल्लादों के प्रधान नबूजरदान

- १२ को बिर्मयाह के विषय यह आशा दी थी कि, उस को लेकर उस पर कृपादृष्टि बनाये रखना और उस की कुछ हानि न करना जैसा वह तुम्ह से कहे बैसा ही उस से व्यवहार करना । सो जल्खादों के प्रधान नबूजरदान और खोजों के प्रधान नबूसजबान और मगों के प्रधान
- १३ नेर्यालसेर और बाबेल के राजा के सब प्रधानों ने, लोगों को भेजकर बिर्मयाह को पहरे के आंगन में से बुलवा लिया और गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था सौंप दिया कि वह उसे घर पहुँचाए तब से वह लोगों के बीच में रहने लगा ॥
- १४ जब बिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था तब यहोवा का यह वचन उस के पास पहुँचा था कि, जाकर एबेदमेलेक कूशी से कह इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुम्ह से यों कहता है कि तुन मैं अपने वे वचन जो मैं ने इस नगर के विषय कहे हैं ऐसे पूरे करूंगा कि इस का कुशल न होगा हानि ही होगी और उस समय उन का पूरा होना तुम्हें देख पड़ेगा । पर यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुम्हें बचाऊंगा और किन मनुष्यों से तू भय खाता है उन के वश में तू कर दिया न जाएगा । क्योंकि मैं तुम्हें निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा तेरा प्राण बचा रहेगा यहोवा की यह वाणी है कि यह इस कारण होगा कि तू ने मुझ पर भरोसा रक्खा है ॥

४०. जब जल्खादों के प्रधान नबूजरदान ने बिर्मयाह को रामा में उन सब यरूशलेमी और यहूदी बन्धुओं के बीच हथकड़ियों से बंधा हुआ पाकर जो बाबेल जाने को थे झुड़ा लिया उस के पीछे यहोवा का वचन उस के पास पहुँचा । जल्खादों के प्रधान नबूजरदान ने तो बिर्मयाह को उस समय अपने पास बुला लिया और कहा इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है सो तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी । और जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उस ने पूरा भी किया है तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उस की नहीं मानी इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है । और अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को काटे देता हूँ और यदि मेरे संग बाबेल में जाना तुम्हें अच्छा लगे तो चल वहाँ मैं तुम्ह पर कृपादृष्टि रक्खूंगा और यदि मेरे संग बाबेल जाना तुम्हें न भाए तो रह जा देख सारा देश तेरे साम्हने पड़ा है जिधर जाना तुम्हें अच्छा और ठीक जंचे उधर ही जा । वह जब तक लौट न गया था कि नबूजरदान ने उस से कहा कि गदल्याह जो

अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है जिस को बाबेल के राजा ने यहूदा के नगरों पर अधिकारी ठहराया है उस के पास लौट जा और उस के संग लोगों के बीच रह बा जहाँ कहीं तुम्हें जाना ठीक जान पड़े वही जा । सो जल्खादों के प्रधान ने उस को सीधा और कुछ द्रव्य भी देकर बिदा किया । तब बिर्मयाह अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास मिस्रा को गया और वहाँ उन लोगों के बीच जो देश में रह गये थे रहने लगा ॥

योदाओं के जो दल दिहात में थे जब उन के सब प्रधानों ने अपने जनों समेत सुना कि बाबेल के राजा ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को देश का अधिकारी ठहराया और देश के जिन कंगाल लोगों को वह बाबेल को नहीं ले गया क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बालबच्चे उन सभी को उसे सौंप दिया है, तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल और कारेह के पुत्र योहानान और योनातान और तन्हूमेत का पुत्र सरयाह और एपै नतोपावासी के पुत्र और किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह अपने जनों समेत गदल्याह के पास मिस्रा में आये । और गदल्याह जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था उस ने उन से और उन के जनों से किरिया खाकर कहा कसदियों के अधीन रहने से मत डरो इसी देश में रहते हुए बाबेल के राजा के अधीन रहो तब तुम्हारा भला होगा । और मैं तो इसलिये मिस्रा में रहता हूँ कि जो कसदी लोग हमारे यहाँ आएँ उन के साम्हने हाजिर हुआ करूँ पर तुम दाखमधु और धूपकाल के फल और तेल को बटोर के अपने बरतनों में रखते अपने लिये हुए नगरों में बसे रहो । फिर जब मोआवियों अम्मोनियों एदोमियों और और सब जातियों के बीच रहनेहारे सब यहूदियों ने सुना कि बाबेल के राजा ने यहूदियों में से कुछ लोग बचाये और उन पर गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है अधिकारी ठहराया है, तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तित्तर बित्तर हो गये थे उन से लौटकर यहूदा देश के मिस्रा नगर में गदल्याह के पास आये और बहुत सा दाखमधु और धूपकाल के फल बटोरने लगे ॥

तब कारेह का पुत्र योहानान और मैदान में रहनेहारे योदाओं के सब दलों के प्रधान मिस्रा में गदल्याह के पास आकर, कहने लगे क्या तू जानता है कि अम्मोनियों के राजा बात्सीस ने नतन्याह के पुत्र इश्माएल को तुम्हें प्राण से मारने के लिये भेजा है । पर अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने उन की प्रतीति न की । फिर कारेह के पुत्र योहानान ने गदल्याह से

मिस्या में छिपकर कहा तुम्हें जाकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल के मार डालने के और कोई इसे न जानेगा वह तुम्हें क्यो मार डाले और जितने यहूदी लोग तेरे पास एकट्ठे हुए हैं सो क्यो तित्तर बिस्तर हो जाए और १६ बचे हुए यहूदी क्यो नश हो जाए। अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने कारेह के पुत्र योहानान से कहा देखा काम मत कर तू इश्माएल के विषय झूठ बोलता है ॥

**४१. और** सातवें महीने में इश्माएल जो नतन्याह का पुत्र और

एलीशामा का पोता और राजवंश का और राजा के प्रधान पुरुषों में से था सो दस जन संग लेकर मिस्या में अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास आया और २ वहां मिस्या में वे एक संग भोजन करने लगे। तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल और उस के संग के दस जनों ने उठकर गदल्याह के जो अहीकाम का पुत्र और शापाम का पोता था और जिसे बाबेल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था तलवार से ऐसा मारा ३ कि वह मर गया। और गदल्याह के संग जितने यहूदी मिस्या में थे और जो कसदी बोद्धा वहां मिले उन ४ सभी को इश्माएल ने मार डाला। और गदल्याह के मार डालने के दूसरे दिन जब कोई इसे न जानता ५ था, तब शकेम और शीलौ और शोमरोन से अस्की पुरुष डाही मुड़ाये बख पाड़े शरीर खीरे हुए और हाथ में अन्नबलि और लोबान लिये हुए यहोवा के भवन में ६ जाने को आते दिखाई दिये। तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल उन से मिलने को मिस्या से निकला और रोता हुआ चला और जब वह उन से मिला तब कहा ७ अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो। जब वे उस नगर के बीच आये तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने अपने संगी जनों समेत उन को घात करके गड़हे के ८ बीच फेंक दिया। पर उन में से दस मनुष्य इश्माएल से कहने लगे हम को मार न डाल क्योंकि हमारे पास मैदान में रक्ता हुआ गेहूं जब तेल और मधु है सो उस ने उन्हें छोड़ दिया और उन के भाइयों के क्षय ९ कर न डाला। जिस गड़हे में इश्माएल ने उन लोगों की सब लोयें जिन्हें उस ने मारा था गदल्याह की लोय के पास फेंक दी सो वही गड़हा है जिसे आसा राजा ने इश्माएल के राजा बाशा के डर के मारे खुदबाया था उस को नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मारे हुआ से १० भर दिया। तब जो लोग मिस्या में बचे हुये वे अर्थात् राजकुमारियां और जितने और लोग मिस्या में रह गये वे

जिन्हें जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को लौप दिया था उन सभी को नतन्याह का पुत्र इश्माएल बंधुआ करके अम्मोनियों के पास ले जाने का चला ॥

जब कारेह के पुत्र योहानान ने और योदाओं के ११ दलों के उन सब प्रधानों ने जो उस के संग थे हुआ कि नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने यह सब बुराई की है, तब वे सब जनों को लेकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल से लड़ने को निकले और उस को उस बड़े जलाशय के पास पाया जो गिबोन में है। कारेह के पुत्र योहानान को और दलों के सब प्रधानों को जो उस के संग थे देखकर इश्माएल के संग जो लोग थे सो सब आनन्दित हुए। और जितने लोगों को इश्माएल मिस्या से बंधुआ १४ करके लिये जाता था सो पलटकर कारेह के पुत्र योहानान के पास चले आये। पर नतन्याह का पुत्र इश्माएल १५ आठ पुरुष समेत योहानान के हाथ में बचकर अम्मोनियों के पास चला गया। तब प्रजा में से जितने कच १६ गये वे अर्थात् जिन योदाओं जिनो बालबच्चों और खोडों को कारेह का पुत्र योहानान अहीकाम के पुत्र गदल्याह के मिस्या में मारे जाने के पीछे नतन्याह के पुत्र इश्माएल के पास से छुगकर गिबोन से फिर ले आया था उन को वह अपने सब संगी दलों के प्रधानों समेत लेकर चल दिया, और बेतलेहेम के निकट जो १७ किम्हाम की सराय है उस में वे इसलिये टिक गये कि मिस्र में जाएं। क्योंकि वे कसदियों से डरते थे इस १८ कारण कि अहीकाम का पुत्र गदल्याह जिसे बाबेल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था उसे नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मार डाला था ॥

**४२. तब** कारेह का पुत्र योहानान और होशा-

वाह का पुत्र याजन्याह और दलों के सब प्रधान छोटे से लेकर बड़े लो सब लोग यिर्मयाह नबी के निकट आकर, कहने लगे हममरी बिनती प्रहया करके २ अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुआ के लिये प्रार्थना कर क्योंकि तू अपनी आत्मा से देखता है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही रह गये हैं। सो ३ इसलिये प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हम को बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। सो यिर्मयाह नबी ने उन से कहा मैं ने तुम्हारी ४ खुनी है देखो मैं तुम्हारे बचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिये दे सो मैं तुम को बताऊंगा मैं तुम से कोई



- ५ बात न रख छोड़ूंगा । उन्होंने ने धर्मशास्त्र से कहा यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाये और हम उस के अनुसार न करें तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वासयोग्य साक्षी ठहरे ।
- ६ चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी तौभी हम अपने परमेश्वर यहोवा की जिस के पास हम तुम्हें भेजते हैं मानेंगे जिस से जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानें तब हमारा भला हो ॥
- ७ दस दिन के बीते पर यहोवा का वचन धर्मशास्त्र के पास पहुंचा । तब उस ने कारेह के पुत्र योहानान को और उस के साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े लों जितने लोग थे उन सभी को बुलाकर उन से कहा । इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिस के पास तुम ने मुझ को इसलिये भेजा कि मैं तुम्हारी बिनती उस के आगे कह सुनाऊं सो यों कहता है कि, यदि तुम इस देश में सचमुच रह जाओ तब तो मैं तुम को नाश न करूंगा बनाये रखूंगा और नहीं उखाड़ूंगा रोये रखूंगा क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैं ने की है उस से मैं पछुताता हूँ । तुम जो बाबेल के राजा से डरते हो सो उस से मत डरो यहोवा की यह बाणी है कि उस से मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुम को उस के हाथ से बचाने के लिये तुम्हारे संग हूँ । और मैं तुम पर दया करूंगा और वह भी तुम पर दया करके तुम को तुम्हारी भूमि पर फेर बसा देगा । पर यदि तुम यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो कि हम इस देश में न रहेंगे, हम मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे क्योंकि वहां हम तो न युद्ध देखेंगे और न नरसिंघे का शब्द सुनेंगे न भोजन की घटी हम को होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों अब यहोवा का वचन सुना इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिये जाओ, तो जिस तलवार से तुम डरते हो वही वहां मिस्र देश में तुम को जा लगी और जिस महंगी का भय तुम खाते हो सो मिस्र में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी और वहां तुम मरोगे । जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिये उस की ओर मुंह करें सो सब तलवार महंगी और मरी से मरेंगे और जो विपत्ति मैं उन के बीच डालूंगा उस से कोई उन में से बचा न रहेगा । इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी उसी प्रकार से यदि तुम

मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर देखी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर साप दिया और निन्दा किया करेंगे और तुम इस स्थान को फिर न देखने पाओगे ॥

हे बचे हुए यहूदियों यहोवा ने तुम्हारे विषय कहा है कि मिस्र में मत जाओ सो तुम निश्चय करके जानो कि मैं आज तुम को चिताकर यह बात कहता हूँ । क्योंकि जब तुम ने मुझ को यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया कि हमारे मित्रित्व हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हम को बतल और हम वैसा ही करेंगे तब तुम जान, मुझके अपने ही को बोला देते थे । देखो मैं आज तुम को बताये देता हूँ पर और जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम से कहने के लिये मुझ को भेजा है उस में से तुम कोई बात नहीं मानते । सो अब तुम निश्चय करके जानो कि जिस स्थान में तुम परदेशी होके रहने की इच्छा करते हो उस में तुम तलवार महंगी और मरी से मर जाओगे ॥

### ४३. जब धर्मशास्त्र उन के परमेश्वर यहोवा

के सब वचन जिन के कहने के लिये उस ने उस को उन सब लोगों के पास भेजा था अर्थात् वे सब वचन कह चुका तब, होशया के पुत्र अजर्थाह और केरह के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने धर्मशास्त्र से कहा तू झूठ बोलता है हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझ को यह कहने के लिये नहीं भेजा कि मिस्र में रहने के लिये मत जाओ । पर नेरिव्याह का पुत्र बारूक तुझ को हमारे विरुद्ध उसकाता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़ें और वे हम को मार डालें वा बन्धुआ करके बाबेल को ले जाएं । सो कारेह के पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधानों और सब लोगों ने यहूदा देश में रहने की यहोवा की आज्ञा मानने को नकारा । और जो यहूदी उन सब जातियों में से जिन के बीच वे तिसर विस्तर हो गये थे लौटकर यहूदा देश में रहने लगे वे उन को कारेह का पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधान ले गये । पुरुष स्त्री बालबच्चे राजकुमारियाँ और जितने प्राणियों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह को जो अही-काम का पुत्र और शापान का पोता था सौंप दिया था उन को और धर्मशास्त्र नबी और नेरिव्याह के पुत्र बारूक को वे ले गये । सो वे मिस्र देश में तहपन्हेस नगर लौ आ गये क्योंकि उन्होंने ने यहोवा की मानने को नकारा ॥

८ तब यहोवा का यह वचन तहपन्हेस में विर्मयाह  
 ९ के पास पहुंचा कि, अपने हाथ से बड़े पत्थर लो और  
 यहूदी पुरुषों के साम्हने उस ईंट के चबूतरे में जो  
 तहपन्हेस में फिरौन के मकान के द्वार के पास है, चूना  
 १० फेर के छिपा दे। और उन पुरुषों से कह, इस्राएल का  
 परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि सुनो मैं  
 यावेल के राजा अपने सेबक नबूकदनेस्सर को बुलवा  
 भेजंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर  
 जो मैं ने छिपा रखे हैं रखाएगा और अपना छत्र इन  
 ११ के ऊपर तनवाएगा। और वह आके मिस्र देश को  
 मारेगा तब जो मरनेहारे हैं सो मृत्यु के और जो बन्धुए  
 होनेहारे हैं सो बन्धुआई के और जो तलवार से कटने-  
 १२ हारे हैं सो तलवार के वश में कर दिये जायेंगे। और  
 मैं मिस्र के देवालयों में आग लगवाऊंगा वह उन्हें  
 फुंकवा देगा और देवताओं को बन्धुआई में ले जाएगा  
 और जैसा कोई चरवाहा अपना बख्त ओढ़ता है वैसा ही  
 वह मिस्र देश को ओढ़ेगा और वह बेखटके चला  
 १३ जाएगा। और वह मिस्र देश के दर्यगृह के स्तंभों को  
 तुड़वा डालेगा और मिस्र के देवालयों को आग लगाकर  
 फुंकवा देगा ॥

## ४४. जितने यहूदी लोग मिस्र देश में

मिग्दोल तहपन्हेस और  
 नोप नगरों और फ्रोस देश में रहते थे उन के विषय  
 २ यह वचन विर्मयाह के पास पहुंचा कि, इस्राएल का  
 परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जो विपत्ति  
 मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका  
 हूं वह सब तुम लोगों ने देखी है और देखो वे आज  
 ३ के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं। और इस का  
 कारण उन के निवासियों की वह बुराई है जिस के  
 करने से उन्हें ने मुझे रिस दिलाई थी कि वे जाकर  
 दूसरे देवताओं के लिये धूप जलाते और उन की उपासना  
 करते थे जिन्हें न तो तुम जानते थे और न तुम्हारे  
 ४ पुरखा। मैं तुम्हारे पास अपने सब दास कब्रियों को  
 यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता रहा कि यह  
 धिनौना काम जिस से मैं धिन रखता हूं मत करो।  
 ५ पर उन्होंने ने मेरी न सुनी न मेरी और कान लगाया कि  
 अपनी बुराई से फिर और दूसरे देवताओं के लिये धूप  
 ६ न जलाए। इस कारण मेरी अज्ञजलाहट और कोप की  
 आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर

भड़क गई और इस से वे आज के दिन उजाड़ और  
 सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर जो  
 इस्राएल का परमेश्वर है सो यों कहता है कि तुम लोग  
 अपनी यह बड़ी हानि क्यों करते हो कि क्या पुसप क्या  
 स्त्री क्या बालक क्या दूधपिउवा बच्चा तुम सब यहूदा के  
 बीच से नाश किये जाओ और कोई न रहे। क्योंकि इस  
 ८ मिस्र देश में जहां तुम परदेशी होकर रहने के लिये आये  
 हो तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात् दूसरे देवताओं के  
 लिये धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो जिस से तुम  
 नाश हो जाओगे और पृथ्वी भर की सब जातियों के  
 लोग तुम्हारी जाति की नामधराई करेंगे और तुम्हारी  
 उपमा देकर स्थाप दिया करेंगे। जो जो बुराइयां तुम्हारे  
 ९ पुरखा और यहूदा के राजा और उन की स्त्रियां और  
 तुम्हारी स्त्रियां बरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम  
 की सड़कों में करते थे उसे क्या तुम भूल गये हो। उन  
 १० का मन आज के दिन लों चूर नहीं हुआ और न वे डरते  
 हैं और न मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलाते  
 हैं जो मैं ने तुम्हारे पितरों को और तुम को भी सुनवाई है।  
 इस कारण इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों  
 ११ कहता है कि सुनो मैं तुम्हारे विमुख होकर तुम्हारी हानि  
 करूंगा कि सारे यहूदियों का अन्त करूं। और बचे हुए  
 १२ यहूदियों को जो हट करके मिस्र देश में आकर रहने  
 लगे हैं सो सब मिट जायेंगे इस मिस्र देश में छोटे से  
 लेकर बड़े लों वे तलवार और महगी के द्वारा मरके  
 १३ मिट जायेंगे और लोग कोसोंगे और चकित होंगे और  
 उन की उपमा देकर स्थाप दिया और निन्दा किया करेंगे।  
 सो जैसा मैं ने यरूशलेम को तलवार महगी और मरी  
 १४ के द्वारा दण्ड दिया है वैसा ही मिस्र देश में रहनेहारों  
 को भी दण्ड दू। सो बचे हुए यहूदी जो मिस्र देश में  
 परदेशी होकर रहने के लिये आये हैं यद्यपि वे यहूदा  
 देश में रहने के लिये लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते  
 हैं तौ भी उन में से एक भी बचकर वहां लौटने न पाएगा  
 भागे हुआओं को छोड़ कोई भी वहां न लौटने पाएगा ॥  
 तब मिस्र देश के फ्रोस में रहनेहारे जितने पुरुष  
 १५ जानते थे कि हमारी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिये धूप  
 जलाती हैं और जितनी स्त्रियां बड़ी मयडली बांधे हुए  
 पांस खड़ी थीं उन सभी ने विर्मयाह को यह उत्तर दिया  
 कि, जो वचन तू ने यहोवा के नाम से हम को सुनाया  
 १६ है उस को हम नहीं सुनने की। जो जो मन्तें हम मान  
 १७

(१) मूल में तबको उठकर ।

(१) मूल में उठेली ।

(२) मूल में मैं उन्हें लूंगा और वे सब

मिट जायेंगे ।

- चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी कि हम स्वर्ग की रानी के लिये धूप जलाएँ और तपावन दें जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और और हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करती थी क्योंकि उस समय हम पैदल भरके खाते और भली चंगी रहती थी और किसी १८ विपत्ति में न पड़ती थी। पर जब से हम ने स्वर्ग की रानी के लिये धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया तब से हम के सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार १९ और महंगी के द्वारा मिट चली हैं। और जब हम स्वर्ग की रानी के लिये धूप जलाती और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती ॥
- २० तब क्या स्त्री क्या पुरुष जितने लोगों ने विर्मयाह के यह उत्तर दिया उन से उस ने कहा, तुम्हारे पुरखा और तुम जो अपने राजाओं और हाकिमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे क्या वह यहोवा के चित्त में नहीं चढ़ा २१ या और क्या वह उस को स्मरण न रहा। तो जब यहोवा तुम्हारे बुरे कामों और सब चिनीने कामों को और सह न सका तब से तुम्हारा देश उजाड़कर निर्जन और सुनसान हो गया यहां तक कि लोग उस की उपमा देकर खाप दिया करते हैं जैसे कि आज होता २२ है। तुम जो धूप जला कर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उस की न सुनते और उस की व्यवस्था और विधियों और चितीनियों के अनुसार न चलते थे इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी जैसे कि आज के दिन है ॥
- २३ फिर विर्मयाह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा हे सारे मिस्र देश में रहनेवाले यहूदियों यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि तुम और तुम्हारी स्त्रियों ने मजतें मानीं<sup>१</sup> और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हम ने स्वर्ग की रानी के लिये धूप जलाने और तपावन देने की जो जो मजतें मानी हैं उन्हें हम अचरब ही पूरी करेंगे। भला अपनी अपनी मजतों को मानकर २४ पूरी करो। पर हे मिस्र देश में रहनेवाले सारे यहूदियों यहोवा का वचन सुनो कि मैं ने अपने बड़े नाम की फिरिया खाई है कि अब सारे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह कहने न पाएगा

(१) मूल में अपने अपने मुंह से कहा ।

कि प्रभु यहोवा के जीवन की सौह। सुनो अब मैं उन २७ की भलाई नहीं हानि ही की चिन्ता<sup>२</sup> करूंगा सो मिस्र देश में रहनेवाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नाश हो जाएंगे। और जो तलवार से बचकर २८ और मिस्र देश से लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे सो थोड़े ही होंगे और मिस्र देश में रहने के लिये आये हुए सब यहूदियों में से जो बचेंगे सो जान लेंगे कि किस का वचन ठहरा मेरा वा उन का। और यहोवा की यह वाणी २९ है कि मैं जो तुम को इस स्थान में बसूँ दूंगा इस बात का यह चिन्ह मैं तुम्हें देता हूँ जिस से तुम जान सको कि मेरे वचन तुम्हारी हानि करने में निश्चय पूरे होंगे। यहोवा यों कहता है कि सुनो जैसा मैं ने यहूदा ३० के राजा सिदकियाह को उस के शत्रु अर्थात् उस के प्राण के खोजी बाबेल के राज्य नबूकदनेस्सर के हाथ में दिया वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होप्ता को भी उस के शत्रुओं अर्थात् उस के प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा ॥

### ४५. योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाक़ीम के राज्य

के चौथे बरस में जब नेरिव्याह का पुत्र बारूक विर्मयाह नबी से नबूवत के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था तब उस ने उस से यह वचन कहा कि, हे २ बारूक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझ से यों कहता है कि, तू ने तो कहा है कि हाय हाय यहोवा ने ३ मुझे दुःख पर दुःख दिया है<sup>३</sup> मैं कराहते कराहते हार गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। सो तू उस से ४ यों कह कि यहोवा यों कहता है कि सुन इस सारे देश में जिस को मैं ने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा और जिन को मैं ने रोपा था उन को मैं आप उखाड़ूंगा। ५ सो तू जो अपनी बड़ाई का बल करता है सो मत कर क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा पर जहां कहीं तू जाए जहां मैं तेरा प्राण बचाकर जीता रखूंगा ॥

### ४६. अन्यजातियों के विषय यहोवा का जो वचन विर्मयाह नबी के पास पहुंचा सो यह है ॥

मिस्र के विषय मिस्र के राजा फिरौन नफी की जो ६ सेना परात महानद के तीर पर कर्कमीश में थी और बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसे योशियाह के

(२) मूल में जागता हुआ । (३) मेरी पीड़ा पर खेद बढ़ाया है ।

(४) मूल में तैरे प्राण को लूट सबकर तुम्हें दूंगा ।

पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस  
 ३ में मार लिया उस सेना के विषय, डालें और परियां  
 ४ तैयार करके लड़ने को निकट आओ। घोड़ों को जुत-  
 वाओ और हे सवारों घोड़ों पर चढ़कर टोप पहिने हुए  
 ५ खड़े हो जाओ भालों को पैना करो फिलमों को पहिन  
 लो। मैं ने इसे क्यों देखा है वे विस्मित होकर पीछे  
 हट गये और उन के शूरवीर गिराये गये और उतावली  
 ६ करके भाग गये और पीछे देखते भी नहीं यहोवा की  
 यह वाणी है कि चारों ओर भय ही भय है। न वेग  
 चलनेहारे भागने और न वीर बचने पाए क्योंकि उत्तर  
 की दिशा में परात महानद के तीर पर वे सब ठोकर  
 ७ खाकर गिर पड़े। यह कौन है जो नील नदी की नाई  
 जिस का जल महानदी का सा उछलता है बड़ा आता  
 ८ है। मिस्र नील नदी की नाई बढ़ता है और उस का जल  
 महानदी का सा उछलता है वह कहता है मैं चढ़कर  
 पृथिवी को भर दूंगा मैं निवासियों समेत नगर नगर को  
 ९ नाश करूंगा। हे मिस्री सवारों चढ़ो हे रथियो बहुत ही  
 वेग से चलाओ हे डाल पकड़नेहारे कृशी और पूती  
 १० वीरो हे धनुर्धारी लूदियों चले आओ। और वह दिन  
 मेनाओ के यहोवा प्रभु के पलटा लेने का दिन होगा  
 जिस में वह अपने द्रोहियों में पलटा लेगा सो तलवार  
 खाकर तूम और उन का लोहू पीकर लूक जाएगी क्योंकि  
 उत्तर के देश में परात महानद के तीर पर सेनाओं के  
 ११ यहोवा प्रभु का यज्ञ है। हे मिस्र की कुमारी कन्या  
 गिलाद को जाकर बलसान औपधि ले पर तू व्यर्थ ही  
 बहुत इलाज करती है क्योंकि तू चंगी होने की नहीं।  
 १२ सब जाति के लोगों ने सुना है कि तू नीच हो गई और  
 पृथिवी तेरी चिह्नाहट से भर गई वीर से वीर ठोकर  
 खाकर गिर पड़े वे दोनों एक संग गिर गये हैं ॥  
 १३ यहोवा ने विर्मयाह नबी से इस विषय कि  
 बाबेल का राजा नबुकदनेस्सर क्योंकि आकर मिस्र  
 १४ देश को मार लेगा यह वचन भी कहा कि, मिस्र में  
 वर्णन करो और गिम्दोल में सुनाओ और नोप और  
 तहपनदश में सुनाकर यह कहो कि खड़ा होकर तैयार  
 हो जा क्योंकि तेरे चारों ओर सब कुल्लु तलवार खा  
 १५ गई है। तेरे बलवन्त जन क्यों थिलाय गये हैं यहोवा  
 १६ ने उन्हें ढकेल दिया इस से वे खड़े न रह सके। उस ने  
 बहुतों को ठोकर खिलाई सो ये एक दूसरे पर गिर पड़े  
 तब कहने लगे चलो हम कगल तलवार के डर के  
 मारे अपने अपने लोगों और अपनी अपनी जन्म-भूमि

में फिर जाएं। वहां वे पुकारके कहते हैं कि मिस्र का १७  
 राजा फिरौन हौरा ही हौरा है उस ने अपना अबसर खो  
 दिया है। राजाधिराज जिस का नाम सेनाओं का १८  
 यहोवा है उस की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सों  
 कि वह ऐसा आएगा जैसा ताबोर और और पहाड़ों से  
 और कर्मेल समुद्र पर से देव पड़ता है। हे मिस्र के रहने- १९  
 हारी बंधुआई के योग्य सामान तैयार कर रख क्योंकि  
 नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उस  
 में कोई न रहेगा। मिस्र बहुत ही सुन्दर बल्लिया तो है २०  
 पर उत्तर दिशा से नाश चला आता है वह आ भी  
 चुका है। और उस के जो सिपाही किराये में आये हैं सो २१  
 इस बात में पोसे हुए बल्लुओं के समान हैं कि उन्होंने ने  
 मुंह मोड़ा और एक संग भाग गये और खड़े नहीं रहे  
 क्योंकि उन की विपत्ति का दिन और दण्ड पाने का  
 समय आ गया। उस की आहट भर्ष के भागने की २२  
 सी होगी। क्योंकि वे बृहत्तों के काटनेहारों की सेना और  
 कुल्हाड़ियां लिये हुए उस के विरुद्ध आएंगे। यहोवा की २३  
 यह वाणी है कि चाहे उस का वन बहुत ही घना भी हो  
 पर वे उस को काट डालेंगे क्योंकि वे टिड्डियों में भी  
 अधिक अनगिनित हैं। मिस्री कन्या की आशा टूटेगी २४  
 क्योंकि वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी  
 जाएगी। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा २५  
 कहता है कि सुनो मैं तो नगरवासी आमोन और  
 फिरौन राजा उस के सब देवताओं और राजाओं समेत  
 मिस्र को और फिरौन को उन समेत जो उस पर भरोसा  
 रखते हैं दण्ड देने पर हूं, और मैं उन को बाबेल के २६  
 राजा नबुकदनेस्सर और उग के कर्मचारियों को जो उन  
 के प्राण के खोजी हैं उन के वश में कर दूंगा।  
 और उस के पीछे वह प्राचीन काल की नाई फिर  
 बसाया जाएगा यहोवा की यह वाणी है। पर हे २७  
 मेरे दास याकूब तू मत डर और हे इस्राएल  
 विस्मित न हो क्योंकि मैं तुम्हें और तेरे वंश को  
 बंधुआई के दूर देश में लूटा ले आऊंगा सो याकूब  
 लोटकर जैन और सुख में रहूंगा और कोई उसे  
 डराने न पाएगा। हे मेरे दास याकूब यहोवा की २८  
 यह वाणी है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग  
 हूं और यद्यपि उन सब जातियों का जिन में मैं  
 तुम्हें बरबस कर दूंगा अन्त कर डालूंगा पर तेरा अन्त न  
 करूंगा तेरी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें  
 किसी प्रकार से निर्दोष न डहराऊंगा ॥

(१) मूल में अंधेर करनेहारी ।

(२) मूल में मिस्र की रहनेहारी कन्या ।

## ४७. फिरौन के अज्जा नगर को मार लेने से पहिले यिर्मयाह

- नबी के पास पलिशितियों के विषय यहोवा का यह वचन  
 २ पहुंचा कि, यहोवा यों कहता है कि देखो उत्तर दिशा  
 में उमएडनेहारी नदी देश को उस सब समेत जो उस  
 में है और निवासियों समेत नगर को डुबो लेगी तब  
 मनुष्य चिल्लाएंगे बरन देश के सब रहनेहारे हाय हाय  
 ३ करेंगे । शत्रुओं के बलवन्त घोड़ों की टाप और रथों के  
 वेग चलने और उन के पहियों के चलने का केलाहल  
 सुनकर वाप के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि मुंह  
 ४ मोड़कर अपने लड़कों को भी न देखेगा । क्योंकि सब  
 पलिशितियों के नाश होने का दिन आता है और सोर  
 और सीदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे  
 क्योंकि यहोवा पलिशितियों को जो कमोर नाम समुद्र  
 तीर के बचे हुए रहनेहारे हैं उन को नाश करने पर है ।  
 ५ अज्जा के लोग सिर मुड़ाये हैं अश्कलोन जो पलिशितियों  
 के नीचान में अकेला रह गया है सो भी मिटाया गया  
 है तू कब लों अपनी देह चीरता रहेगा ॥  
 ६ हाय यहोवा की तलवार तू कब लों कल न पक-  
 डेगी अपने मियान में घुस जा शांत हो और थमी रह ।  
 ७ हाय तू क्योंकि थम सकती क्योंकि यहोवा ने तुभ को  
 आशा दी और अश्कलोन और समुद्रतीर के विरुद्ध  
 ठहराया है ॥

## ४८. मोआब के विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा

- यों कहता है कि नबी पर हाय क्योंकि यह नाश हो  
 गया किर्यातैम की आशा टूटी है वह ले लिया गया  
 २ है ऊंचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया है । मोआब  
 की प्रशंसा जाती रही हेशबोन में उस की हानि की  
 कल्पना की गई है कि आओ हम उस को ऐसा नाश  
 करें कि राज्य न रहे । हे मदमेन तू सुनसान हो जाएगा  
 ३ तलवार तेरे पीछे पड़ेगी । होरोनैम से चिल्लाहट का  
 शब्द नाश और वड़े दुःख का शब्द सुनाई देता है ।  
 ४ मोआब का मत्यानाश हो रहा है उस के नन्हे बच्चों की  
 ५ चिल्लाहट सुन पड़ी । लूहीत की चढ़ाई में लोग लगा-  
 तार रोते हुए चढ़ेंगे और होरोनैम की उतार में लाश  
 ६ की चिल्लाहट का संकट हुआ है । भागकर अपना  
 अपना प्राण बचाओ और उस अधमूए पेड़ के समान  
 ७ हो जाओ जो जङ्गल में होता है । क्योंकि तू जो अपने

(१) मूल में सुना गया ।

कामों और भण्डारों पर भरोसा रखता है इस कारण  
 तू पकड़ा जाएगा और कमाश देवता भी अपने याजकों  
 और हाकिमों समेत बन्धुआई में जाएगा । और यहोवा  
 ८ के वचन के अनुसार नाश करनेहारे तुम्हारे एक एक  
 नगर पर चढ़ाई करेंगे और तुम्हारा कोई नगर न बचेगा  
 और नीचानवाले और पहाड़ पर की चौरस भूमिवाले  
 दोनों नाश किये जाएंगे । मोआब को पंख दे कि वह  
 ९ उड़कर दूर हो जाए क्योंकि उस के नगर यहां लों उजाड़  
 हो जाएंगे कि उन में कोई न रह जाएगा । जो कोई  
 १० यहोवा का काम आलस्य से करे और जो अपनी  
 तलवार लोह बहाने से रोक रखे सो स्थापित हो ।  
 मोआब बन्धन ही में सुखी है अपनी तलछट पर बैठ  
 ११ गया है वह न एक बरतन से दूसरे बरतन में उण्डेला  
 गया न बन्धुआई में गया इसलिये उस का स्वाद उस  
 में रहा और उस की गन्ध ज्यों की त्यों बनी रही है ।  
 १२ इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे  
 कि मैं लोगों को उस के उण्डेलने के लिये भेजूंगा  
 और वे उस को उण्डेलेंगे जिन घड़ों में वह रक्खा हुआ  
 १३ है उन को छूछे करके फोड़ डालेंगे । और जैसा इस्राएल  
 के घराने का बेतेल में जिस पर वे भरोसा रखते थे  
 लज्जित होना पड़ा वैसा ही मोआबी लोग कमाश से  
 लजाएंगे । तुम क्योंकि कह सकते हो कि हम तो वीर  
 १४ और पराक्रमी योद्धा हैं । मोआब तो नाश हुआ और  
 १५ उस के नगर भस्म हो गये और उस के चुने हुए जवान  
 घात होने को उतर गये राजाधराज का जिस का नाम  
 सेनाओं का यहांवा है यही वाणी है । मोआब की  
 १६ विपत्ति निकट आ गई और उस का संकट में पड़ने  
 का दिन बहुत ही वेग में आता है । हे उस के आस पास  
 १७ के सब रहनेहारे हे उस की कान्ति के सब जाननेहारे  
 उस के लिये विलाप करो कहो हाय वह मजबूत सांटा  
 और सुन्दर लुड़ी क्या ही टूट गई है । हे दीबोन की  
 १८ रहनेहारी अपना विभव छोड़कर प्यासी बैठी रह  
 क्योंकि मोआब के नाश करनेहारे ने तुभ पर चढ़ाई  
 करके तेरे दड़ गढ़ों को नाश किया है । हे अगोएर की  
 १९ रहनेहारी मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह उस से जो  
 भागता है और उस से जो बच निकलती है पूछ कि  
 क्या हुआ है । मोआब की आशा टूटेगी वह विस्मित  
 २० हो गया सो हाय हाय करो और चिल्लाओ अनोन में भी  
 यह बताओ कि मोआब नाश हुआ है । और चौरस  
 २१ भूमि के देश में होलोन यहसा मेपात, दीबोन नबो  
 २२

(२) मूल में दीबोन की रहनेहारी बेटा ।

२३, २४ बेतदियलातैम, किर्यातैम बेतगामूल, बेतमान, करि-  
 २५ थ्योत बोसा निदान क्या दूर क्या निकट मोआब देश के  
 सारे नगरों में दण्ड की आज्ञा पूरी हुई। यहोवा की  
 यह वाणी है कि मोआब का सींग कट गया और भुजा  
 २६ टूट गई है। उस का मतवाला करो क्योंकि उस ने  
 यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है सो मोआब अपनी  
 २७ छांट में लोटेगा और ठट्टों में उड़ाया जाएगा। क्या तू  
 ने भी इस्राएल को ठट्टों में नहीं उड़ाया क्या वह  
 चोरों के बीच पकड़ा गया कि तू जब जब उस की चर्चा  
 २८ करता तब तब तू सिर हिलाता है। हे मोआब के  
 रहनेहारो अपने अपने नगर को छोड़कर ढांग की दरार  
 में बसो और उस पिरडुकी के समान हो जो गुफा के  
 २९ मुँह की एक ओर घोंसला बनाती हो। हम ने मोआब  
 के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यन्त गर्वी है उस  
 का अहंकार और गर्व और अभिमान और उस का  
 ३० मन फूलना प्रसिद्ध है। यहोवा की यह वाणी है कि मैं उस  
 के रोष को भी जानता हूँ कि वह व्यर्थ ही है उस के  
 बड़े बाल से कुछ बन न पड़ा ॥

३१ इस कारण मैं मोआबियों के लिये हाय हाय करूँगा  
 मैं सारे मोआबियों के लिये चिल्लाऊँगा कीर्हेरस के लांग।  
 ३२ के लिये विलाप किया जाएगा। हे सियमा की दाखलता  
 मैं तुम्हारे लिये याजेर से भी अधिक विलाप करूँगा  
 तेरी डालियाँ तो ताल के पार बढ़ गईं बरन याजेर  
 के ताल लों भी पहुँची थीं पर नाश करनेहारा तेरे  
 धूपकाल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट  
 ३३ पड़ा है। और फलवाली बारियों और मोआब के देश  
 से आनन्द और मगन होना उठ गया है और मैं ने ऐसा  
 किया कि दाखरस के कुण्डों में दाखमधु कुछ न रह  
 गया लोग फिर दाख ललकारते हुए न रीदेंगे जो  
 ३४ ललकार होनेवाली है सो हाँगी नहीं। हेशबोन की  
 चिल्लाहट सुनकर लांग एलाले लों और यहस लों भी  
 और साआर से हारोनेम और एग्लतशलीशया लों  
 भी चिल्लाते हुए भाग चले गये हैं और निझीम का  
 ३५ जल भी सूख गया है। फिर यहोवा की यह वाणी है कि  
 मैं ऊँचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के  
 लिये धूप जलाना दोनों मोआब में बन्द कर दूँगा।  
 ३६ इस कारण मेरा मन मोआब और कीर्हेरस के लोगों के  
 लिये रो रोकर बांसुली सा आलापता है क्योंकि जो कुछ  
 उन्होंने ने कमाकर बचाया है सो नाश हो गया है।  
 ३७ क्योंकि सब के सिर मूँडे गये और सब की डाढ़ियाँ नाची  
 गईं सब के हाथ चीरे हुए और सब की कमरों में टाट  
 ३८ बन्धा हुआ है। मोआब के सब घरों की छतों पर और

सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है क्योंकि यहोवा की  
 यह वाणी है कि मैं ने मोआब को तुच्छ बरतन की नाई  
 तोड़ डाला है। मोआब कैसे विस्मित हो गया हाय हाय ३९  
 करो क्योंकि उस ने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है इस  
 प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहनेहारो उस से  
 ठट्टा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे। क्योंकि यहोवा यों ४०  
 कहता है कि देखो वह उकाय सा उड़ेगा मोआब के  
 ऊपर अपने पख फैलाएगा। करिर्यात ले लिया गया ४१  
 और गढ़वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गये और उस  
 दिन मोआबी वीरों के मन जननेहारी स्त्री के से हो  
 जाएंगे। और मोआब ऐसा तिच्छर बिच्छर हो जाएगा कि ४२  
 उस का दल टूट जाएगा क्योंकि उस ने यहोवा के विरुद्ध  
 बढ़ाई मारी है। यहोवा की यह वाणी है कि हे मोआब के ४३  
 रहनेहारो तेरे लिये भय और गड़हा और फन्दा ठहराये  
 गये हैं। जो कोई भय से भागे सो गड़हे में गिरेगा और ४४  
 जो कोई गड़हे में से निकले सो फन्दे में फँसेगा क्योंकि  
 मैं मोआब के दण्ड का दिन उस पर ले आऊँगा यहोवा  
 की यही वाणी है। जो भागे हुए हैं सो हेशबोन में शरण ४५  
 लेकर खड़े हो गये हैं पर हेशबोन से आग और सीहान  
 के बीच से लौ निकली जिस से मोआब देश के कोने और  
 बलवैयों के चोण्डे भस्म हो गये हैं। हे मोआब तुझ ४६  
 पर हाय कर्मोश की प्रजा नाश हो गई क्योंकि तेरे स्त्री  
 पुरुष दोनों बन्धुआई में गये हैं। तौभी यहोवा की यह ४७  
 वाणी है कि अन्त के दिनों में मैं मोआब को बन्धुआई  
 से लौटा ले आऊँगा। मोआब के दण्ड का वचन यही  
 लों वर्णन हुआ ॥

### ४६. अम्मोनियों के विषय। यहोवा यों

कहता है कि क्या इस्राएल  
 के पुत्र नहीं हैं क्या उस का कोई वारिस नहीं रहा फिर  
 मल्काम क्यों गाद के देश का अधिकारी होने पाया  
 और उस की प्रजा क्यों उस के नगरों में बसने पाई  
 है। यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि २  
 मैं अम्मोनियों के रब्बा नाम नगर के विरुद्ध युद्ध की  
 ललकार सुनवाऊँगा और वह उजड़कर डीह हो जाएगा  
 और उस की बस्तियाँ फूट दी जाएंगी तब जिन  
 लोगों ने इस्राएलियों के देश को अपना लिया है उन के  
 देश को इस्राएली अपना लेंगे यहोवा का यही वचन  
 है। हे हेशबोन हाय हाय कर क्योंकि मेरा नगर नाश हो ३  
 गया है रब्बा की बेटियों चिल्लाओ और कमर में टाट

बांधो छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो क्योंकि मल्काम अपने याजकों और हाकिमों समेत बन्धुआई में जाएगा। हे संग छोड़नेहारी जाति<sup>१</sup> तू अपने देश की तराइयों पर विशेष करके अपनी बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है तू क्यों यह कहकर अपने रक्खे हुए धन पर भरोसा रखती है कि मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि सुन मैं तेरे चारों ओर के सब रहनेहारों की तरफ से तेरे मन में भय उपजाने पर हूं और तेरे लोग अपने अपने साम्हने की ओर धकिया दिये जाएंगे और जब वे मारे सारे फिरंगे तब कोई उन्हें इकट्ठे न करेगा। पर उस के पीछे मैं अम्मोनियों को बन्धुआई से लौटा लाऊंगा यहोवा की यही वाणी है ॥

७ एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही क्या वहां के शानियों की युक्ति निष्फल हो गई क्या उन की बुद्धि जाती रही है। हे ददान के रहनेहारी भागो लौट जाओ वहां छिपकर बसो क्योंकि जब मैं एसाव का दरद देने लगे तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़नेहार तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते और यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूटकर ले न जाते। क्योंकि मैं ने एसाव का उधारा मैं ने उस के छिपने के स्थानों को प्रगट किया वहां लों कि वह छिप न सका उस के वंश और भाई और पड़ोसी सब नाश हो गये और वह जाता रहा है। अपने बपमूए बालकों को छोड़ जाओ मैं उन को जिलाऊंगा और तुम्हारी विधवाए मुझ पर भरोसा रखें। क्योंकि यहोवा यों कहता है कि देखो जो इस के योग्य न थे कि कठोर में से पीएँ उन को तो निश्चय पीना पड़ेगा फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहरके बचेंगा तू निर्दोष ठहरके न बचेंगा १३ अवश्य ही पीना पड़ेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं ने अपनी किरिया खाई है कि बोसा ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे और उस की उपमा देकर निन्दा किया और साप दिया करेंगे और उस के सारे गाव सदा के लिये उजाड़ हो जाएंगे ॥

१४ मैं ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है बरन जानि जाति में यह कहने को एक दूत भेजा गया है कि इकट्ठे हांकर पदान पर चढ़ाई करो और उस से लड़ने को उठो ॥

मैं ने तुम्हे जातियों में छोटी और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है। हे दांग की दरारों में बसे हुए हे पहाड़ी की चांटी पर कोट बनानेवाले<sup>२</sup> तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुम्हे धोखा दिया है चाहे तू उकाब की नाई अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाये तीभी मैं वहां से तुम्हे उतार लाऊंगा यहोवा की यही वाणी है। एदोम वहां लों उजाड़ होगा कि जो कोई उस के पास से चले सो चकित होगा और उस के सारे दुग्धों पर ताली बजाएगा। यहोवा का यह वचन है कि सदोम और अमोरा और उन के आस पास के नगरों के उलट जानें में उन की जैसी दशा हुई थी वैसी ही होगी वहां न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उस में टिकेगा। देखो वह सिह की नाई यर्दन के आस पास के घने जंगल से सदा की चराई पर चड़ेगा और मैं उन को उस के साम्हने से भूट भगा दूंगा तब जिस को मैं चुन लूं उस को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा देखो मेरे तुल्य कौन है और कौन मुझ पर मुकद्दमा चलाएगा और वह चरवाहा कहा है जो मेरा साम्हना कर सकेगा। सो सुनो यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहनेहारों के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा निश्चय वह चराई को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा। उन के गिरने के शब्द से पृथिवी कांप उठती और ऐसी चिल्लाहट मचती जो लाल समुद्र लों सुन पड़ती है। देखो वह उकाब की नाई निकलकर उड़ आएगा और बोसा पर अपने पंख फैलाएगा और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जननेहारी स्त्री का सा हो जायगा ॥

दमिश्क के विषय। हमाम और अपंद की आशा टूटी है क्योंकि उन्होंने ने बुरा समाचार सुना है वे गल गये हैं समुद्र पर चिन्ता है वह शान्त नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन हांकर भागने को फरती है पर कंधकपी ने उसे पकड़ा जननेहारी की सी पीड़े उस को उठी है। हाथ वह नगर वह प्रशान्ता योग्य पुरी जो मेर हर्ष का कारण है सो क्यों छोड़ा न जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस में के जवान चौकों में गिराये जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बन्द हो जाएगा। और मैं दमिश्क की शहरपनाह में आग लगाऊंगा जिस से बेन्हदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे ॥

(१) मूल में संग छोड़नेहारी धेटी ।

(२) मूल में चांटी का पकड़नेहारी । (३) मूल में यर्दन की बड़ाई से ।

(४) मूल में कौन मेरे लिये समय ठहराएगा ।

२८ केदार के विषय और हासोर के राज्यों के विषय जिन्हें बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने मार लिया यहोवा यों कहता है कि उठकर केदार पर चढ़ाई करो और पूरबियों को नाश करो । वे उन के डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे उन के तंबू और सब वस्तु उठाकर ऊटों को भी हांक ले जाएंगे और उन लोगों से पुकारके २९ कहेंगे कि चारों ओर भय ही भय है । यहोवा की यह वाणी है कि हे हासोर के रहनेहारी भागों दूर दूर मारे मारे फिरो कहीं जाकर छिपके वसो क्योंकि बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है । यहोवा की यह वाणी है कि उठकर उस वन से रहनेहारी जात के लोगों पर चढ़ाई करो जो निडर रहते हैं और बिना क्रियाइ और बेरुडे यों ही वसे हुए हैं । उन के ऊंट और अनगिनत गाय बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएंगी क्योंकि मैं उन की गाल के बाल मुंडानेहारे को उड़ाकर सब दिशाओं में तित्तर बित्तर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपात्त लाकर डालूंगा ३३ यहोवा की यह वाणी है । और हासोर गीदडों का वासस्थान और सदा के लिये उजाड़ हांगा न कोई मनुष्य वहां रहेगा और न कोई आदमी उस में टिकेगा ॥

३४ यहूदा के राजा सिदकियाह के राज्य के आदि में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह नबी के पास एलाम के ३५ विषय पहुंचा कि, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं एलाम के धनुष को जो उन के पराक्रम का ३६ मुख्य कारण है तोड़ूंगा । और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं का और तित्तर बित्तर करूंगा यहां लों कि ऐसा कोई जात न रहेगी ३७ जिस में भागत हुए एलामी न आए । और मैं एलाम को उन के शत्रुओं और उन के प्राण के स्वार्जियों के साम्हने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपात्त डालूंगा और यहोवा की यह वाणी है कि मैं तलवार को उन के पीछे चलवाते चलवाते उन ३८ का अन्त कर डालूंगा । और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उन के राजा और हाकिमों को नाश ३९ करूंगा यहोवा की यही वाणी है । और यहोवा की यह भी वाणी है कि अन्त के दिनों में मैं एलाम को बन्धुआई से लौटा ले आऊंगा ॥

**५०. बाबेल और कसदियों के देश के विषय** यहोवा ने

२ यिर्मयाह नबी के द्वारा यह वचन कहा कि, जातियों

(१) मूल में वायुओं ।

में बलाओं और सुनाओं और भरडा खड़ा करे सुनाओं मत छिपाओं कि बाबेल ले लिया गया बेल का मुंह काला हो गया मगदक विस्मित हो गया बाबेल की पाँचमाएँ लज्जित हुईं और उस की बेडौल मूर्तें विस्मित हो गईं । क्योंकि उत्तर दिशा में एक जाति उस पर चढ़ाई करके उस के देश को उजाड़ यहां लों कर देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उस में कोई भी न रह जाएगा सब भागकर चले जाएंगे । योना की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे वे राते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को पूजने के लिये चले आएंगे । वे सिन्धोन की ओर मुंह किए हुए उस का मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे कि आओ हम यहोवा के साथ ऐसी वाचा वाचकर जो कभी बिसर न जाए सदा ठहरी रहे उस से मिल जाएं ॥

मेरा प्रजा खाई हुई भेड़ें हैं उन के चरवाहों ने उन को भटका दिया और पहाड़ों पर फिराया है वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमन घूमने अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं । अतनो ने उन्हें पाया तो उन को भा गये और उन के स्वामिहारी ने कहा इस में हमारा कुछ दोष नहीं क्योंकि यहोवा जो धर्म का आधार है और उन के पितरों का आश्रय था उस के विरुद्ध उन्होंने पाप किया है । बाबेल के बीच में से भागों कसदियों के देश से जैसे वकरे भेड़ बकरियों के अगुवे होते हैं वेगे निकल आओ । क्योंकि देखो मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभारके उन की मण्डली बाबेल पर चढ़ा ले आऊंगा और वे उस के विरुद्ध पाँच वायों उमी दिशा से बह ले लिया जाएगा उन के तीर चतुर वीर के से होंगे उन में मे कोई अकारथ न जाएगा । और कसदियों का देश ऐसा लुटगा कि सब लूटनेहारी का पेट भरगा यहोवा की यह वाणी है । हे मेरे भाग के लूटनेहारी तुम जो मेरी प्रजा पर आनन्द करते और हुलगत हो और घास चरनेहारी बछिया की नाई उछलते और चलवन्त घाँस के समान हिनहिनाते हो, इस कारण तुम्हारी भाता की आशा टूटगी तुम्हारी जननी का मुंह काला हांगा क्योंकि वह सब जातियों में से नीच हांगे वह जंगल और मरु और निर्जल देश हो जाएगी । यहोवा के क्रोध के कारण वह देश वसा न रहेगा वह उजाड़ ही उजाड़ हांगा जो कोई बाबेल के पास से चले सो चकित हांगा और उस के सब दुःख देखकर ताली बजाएगा । हे सब धनुर्धारियों बाबेल के चारों ओर उन के विरुद्ध पाँच वायों उस पर तीर चलाओ उन्हें रख मत छोड़ो क्योंकि उस ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है । चारों



आंर से उस पर ललकारो उस ने हार मानी उस के कोट गिराये और शहरपनाह टाई गई क्योंकि यहोवा उस से अपना पलटा लेने पर है सो तुम भी उस से अपना अपना पलटा लो जैसा उस ने किया है वैसा ही तुम भी १६ उस से करो । बाबेल में से बोनहारा और काटनेहारा दोनों को नाश करो वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरें और अपने अपने देश को भाग जाएं ॥

१७ इस्राएल भगाई हुई भेड़ है सिंहां ने उस को भगा दिया है पहिले तो अशूर के इस राजा ने उस को खा डाला और पीछे बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने उस की १८ हड्डियों को तोड़ दिया है । इस कारण इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहांवा यों कहता है कि सुनो जैसे मैं ने अशूर के राजा को दण्ड दिया था वैसे ही अब देश १९ समेत बाबेल के राजा को दण्ड दूंगा । और मैं इस्राएल को उस की चराई में फेर लाऊंगा और वह कम्मेल और वाशान में फिर चरेगा और एप्रैम के पहाड़ों पर २० और गिलाद में फिर पेट भर खाने पाएगा । यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म दूंदने पर भी पाया न जाएगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी न मिलेंगे क्योंकि जिन को मैं बचा रखूंगा उन का पाप भी क्षमा करूंगा ॥

२१ तू मरातैम देश और पकोद नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर मनुष्यों को तो मार डाल और धन का सत्यानाश कर यहोवा की यह वाणी है कि जो जो २२ आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उन सभी के अनुसार कर । सुनो उस देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द हो रहा २३ है । जो हथौड़ा सारी पृथिवी के लोगों को चूर चूर करता था सो कैसा काट डाला गया है बाबेल सब जांतियों के २४ बीच में कैसा उजाड़ हो गया है । हे बाबेल मैं ने तेरे लिये फन्दा लगाया और तू अनजाने उस में फंस भी गया तू दूंदकर पकड़ा गया है क्योंकि तू यहोवा से भगड़ा २५ करता था । प्रभु सेनाओं के यहोवा ने शस्त्रों का अपना घर खोलकर अपने क्रोध प्रगट करने का सामान निकाला है क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा के कसदियों के देश में २६ एक काम करना है । पृथिवी की छोर से आओ और उस के बखरियों को खोलो उस को ढेर ही ढेर बना दो और सत्यानाश करो कि उस में का कुछ भी बचा न रहे । २७ उस में के सब बैलों को नाश करो वे घात होने के स्थान

में उतर जाएं उन पर हाथ क्योंकि उन के दण्ड पाने का दिन आ पहुंचा है । सुनो बाबेल के देश में से २८ भागनेहारों का सा बोल सुन पड़ता है जो सिथ्योन में यह समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मन्दिर का पलटा ले रहा है । बहुत से २९ बरन सब धनुधारियों को बाबेल के विरुद्ध इकट्ठे करो उस की चारों ओर छावनी डालो उस का कोई भागकर निकलने न पाए उस के काम का बदला उसे देओ जैसा उस ने किया है ठीक वैसा ही उस के साथ करो क्योंकि उस ने यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है । इस कारण उस में के जवान चौकों में गिराये ३० जाएंगे और सब यादों का बोल बन्द हो जाएगा यहांवा की यही वाणी है । प्रभु सेनाओं के यहांवा की ३१ यह वाणी है कि हे अभिमानी मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे दण्ड पाने का दिन आ गया है । सो अभिमानी ठोकर ३२ खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा और मैं उस के नगरों में आग लगाऊंगा और उस से उस के चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा ॥

सेनाओं का यहांवा यों कहता है कि इस्राएल ३३ और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं और जितनों ने उन को बन्धुआ किया सो तां उन्हें पकड़ रहते हैं और जाने नहीं देते । उन का लुड़ानेहारा सामर्थ्य है सेनाओं ३४ का यहांवा यही उस का नाम है वह उन का मुकद्दमा भली भांति लड़गा इसलिये कि वह पृथिवी को चैन देकर बाबेल के निवासियों को व्याकुल करे । यहांवा की ३५ यह वाणी है कि कसदियों और बाबेल के हाकिम पण्डित आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी । उन बड़ा ३६ बोल बोलनेहारों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनंगे उस के शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे । उस में के सवारों और रथियों पर और ३७ सब मिले जुले लोगों पर तलवार चलेगी और वे स्त्री बन जाएंगे । उस के भण्डारों पर तलवार चलेगी और वे लुट जाएंगे । उस के जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे ३८ सूख जाएंगे क्योंकि वह खुदा हुई मूरतों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं । इसलिये निर्जल देश के जन्तु सियारों के संग मिल ३९ कर वहां बसेंगे और शुतुर्मुर्ग उस में वास करेंगे और वह फिर सदा लो बसाया न जाएगा न उस में युग युग लो कोई वास करेगा । यहांवा की यह वाणी है कि ४० सदोम और अमोरा और उन के आस पास के नगरों की जैसी दशा परमेश्वर के उलट देने से हुई थी वैसी

(१) मूल में उन दिनों और उस समय में ।

(२) अर्थात् अत्यन्त बलवैयें । (३) अर्थात् दण्डयोग्य । (४) मूल में मार डाल और उन के पीछे हरम कर ।

(५) मूल में बोंओं और रथों ।

ही बाबेल की भी होगी यहां लों कि न कोई मनुष्य उस  
 ४१ में रहेगा और न कोई आदमी उस में टिकेगा । सुनां  
 उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और पृथिवी  
 की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर  
 ४२ चढ़ाई करेंगे । वे धनुष और बछ्छों पकड़े हुए हैं वे क्रूर  
 और निर्दय हैं वे समुद्र की नाईं गरजेंगे और घोड़ों पर  
 चढ़े हुए तुम्ह बाबेल की बेटी के विरुद्ध पाँच युद्ध  
 ४३ करनेहारों की नाईं आएंगे । उन का समाचार सुनते ही  
 बाबेल के राजा के हाथ पाँव ढीले पड़ जाते हैं और  
 ४४ उस को जननेहारी की सी पीड़ें उठें । सुनां सिंह की  
 नाईं जो यर्दन के आस पास के घने जंगल में सदा  
 की चरई पर चढ़े हैं उन को उस के साम्हने से भट  
 भगा दूंगा तब जिस को मैं चुन लूं उस को उन पर  
 अधिकारी ठहराऊंगा देखो मेरे तुल्य कौन है और कौन  
 मुझ पर मुकद्दमा चलायेगा और वह चरवाहा कहाँ है  
 ४५ जो मेरा साम्हना कर सकेगा । सो सुनो कि यहोवा ने  
 बाबेल के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के  
 देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है निश्चय वह भेड़  
 बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा निश्चय वह  
 सिंह चराइयों को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा ।  
 ४६ बाबेल के ले लिये जाने के शब्द से पृथिवी कांप उठती  
 और उस की चिल्लाहट जानियों में सुन पड़ती है ॥

## ५१. यहोवा यों कहता है कि मैं बाबेल

के और लेवकामै<sup>३</sup> के रहने-

हारों के विरुद्ध एक नाश करनेहारी वायु चलाऊंगा ।  
 २ और मैं बाबेल के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उस  
 को फटक फटककर उड़ा देंगे और इस रीति उस के देश  
 का सुनसान करेंगे और विपत्ति के दिन चारों ओर से  
 ३ उस के विरुद्ध होंगे । धनुर्धारी के विरुद्ध धनुर्धारी धनुष  
 चलाए और अपना जो भिलम पहिने उठे उस के जवानों  
 से कुल्ल कोमलता न करना उसकी सारी सेना का  
 ४ मत्यानाश करना । कसदियों के देश में लोग मारे हुए  
 ५ और उस की मड़कों में लुढ़के हुए गिरेंगे । क्योंकि यद्यपि  
 इस्राएल और यहूदा के देश इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध  
 किये हुए पापों से भरपूर हो गये हैं तो भी उन के  
 परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उन को त्याग  
 नहीं दिया ॥

(१) मूल में यर्दन की बड़ाई से । (२) मूल में कौन मेरे लिए समय  
 ठहराएगा । (३) अर्थात् मेरे विरोधियों का हृदय । यह कसदियों के  
 देश का एक नाम जान पड़ता है ।

बाबेल के बीच से भागे और अपना अपना प्राण  
 बचाओ उस के अघर्म में भागी होकर तुम भी न मिट  
 जाओ क्योंकि यह यहोवा के पलटा लेने का समय है  
 वह उस को बदला देने पर है । बाबेल यहोवा के हाथ  
 ७ में माने का कटोरा ठहरा था जिस में सारी पृथ्वी के  
 लोग मनवाले होने थे जानि जाति के लोगों ने उस के  
 दाम्बध में से पिया इस कारण वे बाबले हो गये ।  
 बाबेल अचानक ले ली और नाश की गई उस के  
 ८ लिये हाथ हाथ करो उस के धावों के लिये बलसान  
 औषधि लाओ क्या जानिये वह चंगी हो सके । हम  
 ९ बाबेल का इलाज करते तो थे पर वह चंगी नहीं हुई  
 सो आओ हम उस को तजकर अपने अपने देश को चले  
 जाएँ क्योंकि उस पर किया हुआ न्याय आकाश बरन  
 स्वर्ग लों भी पहुंच गया है । यहोवा ने हमारे धर्म के  
 १० काम प्रकट किये हैं सो आओ हम गियों में अपने  
 परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें । तीरे पैनी करो  
 ११ ढालें थांभे रहो क्योंकि यहोवा ने माटी राजाओं के मन  
 को उभारा है उस ने बाबेल को नाश करने की कल्पना  
 की है और यहोवा का यही पलटा है जो वह अपने  
 मन्दिर का लेगा । बाबेल की शहरपनाह के विरुद्ध  
 १२ भएडा खड़ा करो बहुत पहरे बैठाओ घात लगानेहारों  
 को बैठाओ क्योंकि यहोवा ने बाबेल के रहनेहारों के  
 विरुद्ध जो कुल्ल कहा था सो अब करने को ढाना और  
 १३ किया भी है । हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और  
 १४ बहुत भएडार रखनेहारी तेरा अन्त आया तेरे लोभ की  
 सीमा पहुंच गई है । सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही  
 किरया खाई है कि निश्चय मैं तुम्ह को टिड्डियों के  
 समान अनगिनित मनुष्यों से भर दूंगा और वे तेरे विरुद्ध  
 ललकारेंगे ॥

उस ने पृथिवी को अपने सामर्थ्य से बनाया और  
 १५ जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया । और आकाश को  
 अपनी प्रवीणता से तान दिया है । जब वह खोलता है  
 १६ तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है वह पृथिवी  
 की छोर से कुहरे उठाना और वर्षा के लिये विजली  
 बनाता और अपने भएडार में से पवन निकाल ले आता  
 है । सब मनुष्य पशु सरीखे जानरहित हैं सब भानारों  
 १७ को अपनी खोदी हुई मूरतों के कारण लज्जित होना  
 पड़ेगा क्योंकि उन की ढाली हुई मूरतें धोखा देनेवाली हैं  
 और उन के कुल्ल भी सांस नहीं चलती । वे तो व्यर्थ  
 १८ और ठट्ट ही के योग्य हैं जब उन के नाश किये जाने  
 का समय आएगा तब वे नाश ही होंगी । पर जो  
 १९

(४) मूल में उन के दण्ड होने के समय ।

याकृत्व का निज अंश है वह उन के गमान नहीं वह तो सब का बनानेहारा है और इस्राएल उस का निज भाग है उस का नाम सेनाओं का यहोवा है ॥

- २० तू मेरा फरसा और युद्ध के हथियार ठहरा है तो तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तिच्छर विच्छर करूंगा और
- २१ तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नाश करूंगा । और तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और रथी समेत रथ को भी तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा । और तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और तेरे ही द्वारा मैं बड़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा । और तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा और तेरे ही द्वारा मैं किसान और उस के जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा । और अधिपतियों और हाकिमों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा । और बाबेल को और सारे कर्मादियों को भी मैं उस सारी बुगई का बदला दूंगा जो उन्होंने ने तुम लोगों के साम्हने सिम्योन से की है यहोवा की यही वाणी है ॥
- २५ हे नाश करनेहारे पहाड़ जिस के द्वारा सारी पृथिवी नाश हुई है यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और
- २६ जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा । और लोग तुझ से न तां पर के काने के लिये पत्थर ले लेंगे और न नेब के लिये क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा यहोवा की यही वाणी है ।
- २७ देश में भण्डा खड़ा करो जाति जाति में नरसिंगा फूँको बाबेल के विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो अरारात मिन्नी और अश्कनज नाम राज्यों को उस के विरुद्ध बुलाओ उस के विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ घोड़ों को शिम्बरवाली
- २८ टिड्डियों के समान अन्तर्निहित चढ़ा ले आओ । उस के विरुद्ध जातियों को तैयार करो मागी राजाओं और अधिपतियों और सब हाकिमों और उस राज्य के सारे देश को तैयार
- २९ करो । यहोवा का यह विचार है कि वह बाबेल के देश को ऐसा उजाड़ करेगा कि उस में कोई भी न रह जाएगा सो अब पूरा होने पर है इस लिये पृथिवी कांपती और दुःखिन होती है । बाबेल के शूरवीर गढ़ों में रहकर लड़ने का नकारते हैं उन की वीरता जाती रही है और वे यह देखकर स्त्री बन गये हैं कि हमारे वासस्थानों में
- ३१ आग लग गई और पाटकों के बेण्डे तोड़े गये हैं । एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देनेहारा दूसरे समाचार देनेहारे से मिलने और बाबेल के राजा को यह

समाचार देने के लिये दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर से ले लिया गया, और घाट शत्रुओं के वश हो गये<sup>१</sup> और ताल मुचाये<sup>२</sup> गये और योद्धा घबरा उठे हैं । क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि बाबेल की बेटी दांवले समय के खलिहान सरीखी है थोड़े ही दिनों में उस की कटनी का काल आएगा ॥

बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने मुझ को खा लिया और मुझ को पीस डाला और मुझ को छूछे बर्तन के समान कर दिया उस ने मगरमच्छ की नाईं मुझ को निगल लिया और मुझ को स्वादिष्ट भोजन जानकर अपने पेट को मुझ से भर लिया उस ने मुझ को बरबस निकाल दिया है । सो सिम्योन की रहनेहारी कहेगी कि मुझ पर और मेरे शरीर पर जो उपद्रव हुआ है सो बाबेल पर पलट आए और यरूशलेम कहेगी कि मुझ में किये हुए लूट का वंश कर्मादियों के देश के रहनेहारों पर लगाया जाएगा ॥

इसलिये यहावा कहता है कि मैं तेरा मुकद्दमा लड़ूंगा और तेरा पलटा लूंगा और उस के ताल को सुखाऊंगा और उस के रोते को सुखा दूंगा । और बाबेल की ही ही और गीदड़ों का वासस्थान होगा और लोग उसे देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उस में कोई न रह जाएगा । लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और गुंराएंगे जैसे युवा सिंह और सिंह के बच्चे अठेर पर करते हैं । पर जब उन को बड़ा उत्साह होगा तब मैं जेवनार तैयार करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा कि वे हुलसकर सदा की नींद में पड़ेंगे और कभी न जागेंगे यहोवा की यही वाणी है । मैं उन को भेड़ों के बच्चों की और भेड़ों और बकरों की नाईं घात कर दूंगा । शोशक कैसे ले लिया गया जिस की प्रशंसा सारी पृथिवी पर होती थी सो कैसे पकड़ा गया बाबेल जाति जाति के बीच कैसे मुनसान हो गया है । बाबेल के ऊपर समुद्र चढ़ आया है वह उस की बहुत सी लहरों में डूब गया है । उस के नगर उजड़ गये और उस का देश निर्जन और निर्जल हो गया है उस में कोई मनुष्य नहीं रहता और उस से होकर कोई आदमी नहीं चलता । मैं बाबेल में बेल को दण्ड दूंगा और उस ने जो कुल्लु निगल लिया है सो उस के मुँह में उगलवाऊंगा और जातियों के लोग फिर उस की ओर तांता बांधे हुए न चलेंगे और बाबेल की शहरपनाह गिराई जाएगी । हे मेरी प्रजा उस के बीच में निकल आओ और अपने अपने प्राण को यशवा के भड़के हुए कोप में बचाओ । और जब उड़ती बात उस देश में सुनी

(१) मूल में घाट पकड़े गये । (२) मूल में आग से जलाये ।

- जाए तब तुम्हारा मन न घबराए और तुम न डरना एक बरस में तो एक उड़ती बात आएगी और उस के पीछे दूसरे बरस में एक और उड़ती बात आएगी और उस देश में उपद्रव हुआ करेगा और हाकिम हाकिम के ४७ विरुद्ध होगा । उस के पीछे मैं बाबेल की खुदी हुई मूर्तों पर दण्ड करूंगा और उस के सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा और उस के सब लोग उस के ४८ यंत्र मार डाले जाएंगे । तब स्वर्ग और पृथिवी के सारे निवासी बाबेल पर जयजयकार करेंगे क्योंकि उत्तर दिशा में नाश करनेहारे उस पर चढ़ाई करेंगे यहोवा की यही ४९ वाणी है । जैसा बाबेल ने इस्राएल के लोगों का मार डाला वैसा ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे । ५० हे तलवार से बचे हुए भागो खड़े मत रहो यहोवा के दूर से स्मरण करो और यरूशलेम की भी सुधि लो ॥
- ५१ हमारा मुंह काला है हम ने अपनी नामधराई सुनी है यहोवा के पवित्र भवन में जो परदेशी घुसने पाये इस से हमारे मुंह पर सियाहीं छाई हुई है ॥
- ५२ इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि मैं उस की खुदी हुई मूर्तों पर दण्ड करूंगा और उस के सारे देश में लोग घायल होकर कराहने ५३ रहेंगे । चाहे बाबेल ऐसा ऊंचा बनाया जाए कि आकाश में बातें करे और उस के ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किये जाएं तभी मैं उसे नाश करने के लिये लोगों का भेजूंगा ५४ यहोवा की यह वाणी है । सुनो बाबेल से चिल्लाहट का शब्द सुन पड़ता और कसदियों के देश से सत्यानाश का ५५ शब्द केलाहल सुनाई देता है । यहोवा बाबेल को नाश और उस में का बड़ा केलाहल वन्द करता है इस से उन ५६ का केलाहल महासागर का सा सुनाई देता है । बाबेल पर भी नाश करनेहारे चढ़ आये हैं और उस के शूरवीर पकड़े गये और उन के धनुष तोड़ डाले गये क्योंकि यहोवा बदला देनेहारा ईश्वर है वह अवश्य ही पलटा ५७ लेगा । और मैं उस के हाकिमों परिडतो अभपतियों रईसों और शूरवीरों को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पड़ेंगे और फिर न जागेंगे सेनाओं के ५८ यहोवा नाम राजाधिराज की यही वाणी है । सेनाओं का यहोवा यों भी कहता है कि बाबेल की चौड़ी शहरपनाह नेब से ढाई जाएगी और उस के ऊंचे पाटक आग लगाकर जल ए जाएंगे और उस में राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ उह ग और जातियों का परिश्रम आग का कौर हो जाएगा और वे थक जाएंगे ॥
- ५९ यहूदा के राजा सिदकियाह के राज्य के चौथे बरस में जब उस के संग बाबेल का सरायाह भी गया

जो नेरियाह का पुत्र और महमेयाह का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था तब यिर्मयाह नवी ने उस को आज्ञा दी कि, इन सब बातों को जो बाबेल ६० पर पड़नेवाली सारी विपत्ति के विषय लिखी हुई हैं यिर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया. और यिर्मयाह ६१ ने सरायाह से कहा जब तू बाबेल में पहुंचे तब अवश्य ही' वे सब वचन पढ़कर, यह कहना कि हे यहोवा तू ने ६२ तो इस स्थान के विषय यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इस में क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी न रह जाएगा बरन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा । और जब ६३ तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर परात महानद के बीच में फेंक देना । और ६४ यह कहना कि यों ही बाबेल डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा यों उस में का सारा परिश्रम व्यर्थ ही ढहरेगा और वे थके रहेंगे ॥

यहां लों यिर्मयाह के वचन हैं ॥

## ५२. जब

सिदकियाह राज्य करने लगा तब वह इक्कीस बरस का था और यरूशलेम में ग्यारह बरस लों राज्य करता रहा उस की माता का नाम हमतल है जो लिब्नावाही यिर्मयाह की बेटी थी । और उस ने यहोवाकीम के २ सब कामों के अनुसार वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा है । सो यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और ३ यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अन्त में उस ने उन को अपने साम्हने से निकाला । और सिदकियाह ने बाबेल के राजा से बलवा किया । सो उस के राज्य के नौवें ४ बरस के दसवें महाने के दसवें दिन को बाबेल का राजा नबुकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उस ने उस के पास छावनी करके उस के चारों ओर कोट बनाये । यों नगर घेरा गया ५ और सिदकियाह राजा के ग्यारहवें बरस लों घिरा रहा । चौथे महाने के नौवें दिन से नगर में महंगी यहाँ ६ लो बढ़ गई कि लोगों के लिये कुछ रोटी न रही । तब ७ नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों भीतों के बीच जो फाटक गजा की वारी के निकट था उस से सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गये और अराबा का मार्ग लिया । उस समय कसदी ८ लों नगर को घेरे हुए थे सो उन की सेना ने राजा का पीछा किया और उस को यरीहो के पास के अराबा में

(१) मूल में तब देख और ।

जा पकड़ा तब उस की सारी सेना उस के पास में तिस्र  
 ९ बिस्तर हो गई । सो वे राजा को पकड़कर हम्रात देश के  
 रिबला में बाबेल के राजा के पास ले गये और वहां उस  
 १० ने उस के दरद की आज्ञा दी । और बाबेल के राजा  
 ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उस के साम्हने घात किया  
 और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात  
 ११ किया । और सिदकिय्याह की आंखों को उस ने फुड़वा  
 डाला और उस को बेड़ियों से जकड़ाकर बाबेल लों ले  
 गया फिर बाबेल के राजा ने उस को दरदगृह में डाल  
 दिया सो वह मरने के दिन लों वहीं रहा ॥

१२ फिर उसी बरस अर्थात् बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर  
 के राज्य के उन्नीसवें बरस के पांचवें महीने के दसवें  
 दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान जो बाबेल के  
 राजा के सन्मुख हाजिर हुआ करता था यरूशलेम  
 १३ में आया । और उस ने यहोवा के भवन और राजभवन  
 और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर  
 १४ फूंक दिया । और यरूशलेम के चारों ओर की सब  
 शहरपनाह को कसदियों की सारी सेना ने जो जल्लादों  
 १५ के प्रधान के संग थी ढा दिया । और कंगाल लोगों  
 में से कितनों को और जो लोग नगर में रह गये और  
 जो लोग बाबेल के राजा के पास भाग गये थे और जो  
 कारीगर रह गये थे उन सब को जल्लादों का प्रधान  
 १६ नबूजरदान बंधुआ करके ले गया । पर दिहात के कंगाल  
 लोगों में से कितनों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने  
 दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़  
 १७ दिया । और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे  
 और पाये और पीतल का गंगाल जो यहोवा के भवन में  
 था उन सभों को कसदी लोग तोड़कर उन का पीतल  
 १८ बाबेल को ले गये । और हांडियों फावड़ियों कैंचियों  
 कटोरों धूपदानों निदान पीतल के और सब पात्रों को  
 १९ जिन से लोग सेवा टहल करते थे वे ले गये । और  
 तसलों करझों कटोरियों हांडियों दीवटों धूपदानों और  
 कटोरों में से जो कुछ सोने का था सो सोने की और जो  
 कुछ चांदी का था सो चांदी की लूट करके जल्लादों का  
 २० प्रधान ले गया । दोनों खंभे एक गंगाल पीतल के बारहों  
 बैल जो पायों के नीचे थे इन सब को तो सुलमान राजा  
 ने यहोवा के भवन के लिये बनवाया था और इन सब  
 २१ का पीतल तौल से बाहर था । खंभे जो थे उन में से एक  
 एक की ऊंचाई अठारह हाथ और घेरा बारह हाथ और

मोटाई चार अंगुल की थी वे तो खोखले थे । और एक २२  
 एक की कंगनी पीतल की थी एक एक कंगनी की ऊंचाई  
 पांच हाथ की थी और उस पर चारों ओर जाली और  
 अनार जो बने थे सो सब पीतल के थे । और कंगनियों २३  
 के चारों अलंगों पर छियानवे अनार बने थे सो जाली  
 के ऊपर चारों ओर एक सौ अनार थे । और जल्लादों २४  
 के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उस के नीचे के  
 याजक सपन्याह और तीनों डेवड़ीदारों को पकड़ लिया ।  
 और नगर में से उस ने एक खोजा पकड़ लिया जो २५  
 योद्धाओं के ऊपर ठहरा था और जो पुरुष राजा के सन्मुख  
 रहा करते थे उन में से सात जन जो नगर में मिले और  
 सेनापति का मुन्शी जो साधारण लोगों को सेना में भरती  
 करता था और साधारण लोगों में से साठ पुरुष जो नगर  
 में मिले, इन सब को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान रिबला २६  
 में बाबेल के राजा के पास ले गया । तब बाबेल के राजा २७  
 ने उन्हें हम्रात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर  
 गये । सो यहूदी अपने देश से बंधुए होकर गये । जिन २८  
 लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुए करके ले गया सो इतने  
 हैं अर्थात् उम के राज्य के सातवें बरस में तीन हजार  
 तेईस यहूदी । फिर अपने राज्य के अठारहवें बरस में २९  
 नबूकदनेस्सर यरूशलेम से आठ सौ बत्तीस प्राणियों  
 को ले गया । फिर नबूकदनेस्सर के राज्य के तेईसवें ३०  
 बरस में जल्लादों का प्रधान नबूजरदान सात सौ पैता-  
 लीस यहूदी प्राणियों को बंधुए करके ले गया सो सब  
 प्राणी मिलकर चार हजार छः सौ हुए ॥

फिर यहूदा के राजा यहोवाकीन की बंधुआई के ३१  
 सैंतीसवें बरस में अर्थात् जिस बरस में बाबेल का राजा  
 एबीलमरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ उसी के  
 बारहवें महीने के पचीसवें दिन को उस ने यहूदा के  
 राजा यहोवाकीन को बन्दीगृह से निकालकर बड़ा पद  
 दिया, और उस से मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा ३२  
 उस के संग बाबेल में बंधुए थे उन के सिंहासनों से उस के  
 सिंहासन को अधिक ऊंचा किया, और उस के बन्दीगृह ३३  
 के वस्त्र बदला दिये और वह जीवन भर नित्य राजा के  
 सन्मुख भोजन करने पाया । और दिन दिन के खर्च के ३४  
 लिये बाबेल के राजा के यहां से नित्य उस को कुछ  
 मिलने का प्रबन्ध हुआ और यह उस के मरने के दिन  
 लों उस के जीवन भर लगातार बना रहा ॥

# विलापगीत ।

१. जो नगरी लोगों से भरपूर थी  
 सो अब क्या ही विधवा सी अकेली  
 बैठी हुई है जातियों के लेखे बड़ी और प्रांतां में  
 रानी थी सो अब क्या ही कर देनेहारी हो गई है ॥  
 २ वह रात को फूट फूटकर रोती है उस के  
 आंसू गालों पर ढलकते हैं  
 उस के सब यारों में से कोई अब उस का शांति  
 नहीं देता  
 उस के सब मित्रों ने उस से विश्वासघात किया  
 और शत्रु बन गये हैं ॥  
 ३ यहूदा दुःख और कठिन दासत्व से बचने के लिये  
 परदेश चली गई  
 पर अन्यजातियों में रहती हुई चैन नहीं पाती  
 उस के सब खदेड़नेहारों ने उसे घाटी में पकड़  
 लिया ॥  
 ४ सिथ्योन के मार्ग विलाप कर रहे हैं इसलिये कि  
 नियत पथों में कोई नहीं आता  
 उस के सब फाटक सुनसान पड़े हैं उस के  
 याजक कहरते हैं  
 उस की कुमारियां शांकित हैं और वह आप  
 कठिन दुःख भोग रही है ॥  
 ५ उस के द्रोही प्रधान हो गये उस के शत्रु भाग्य-  
 बान् हैं  
 क्योंकि यहोवा ने उस के बहुत से अपराधों के  
 कारण उसे दुःख दिया  
 उस के बालवच्चों का शत्रु हांक हांकर बन्धुआड़  
 में ले गये ॥  
 ६ और सिथ्योन की पुत्री का सारा प्रताप जाता  
 रहा  
 उस के हाकिम ऐसे हरिणों के समान हो गये जो  
 कुछ चराई नहीं पाते  
 और खदेड़नेहारों के साम्हने से बलहीन होकर  
 भाग गये हैं ॥  
 ७ यरूशलेम ने इन दुःख और मारे मारे फिरने के  
 दिनों में

अपनी सब मनभावनी वस्तुएँ जो प्राचीन काल से  
 उम की यनी थीं स्मरण की हैं  
 जब उस के लांग द्रोहियों के हाथ में पड़े और उस  
 का कोई सहायक न रहा  
 तब उन द्रोहियों ने उस को उजड़ा देख कर ठट्टा  
 किया ॥  
 यरूशलेम ने बड़ा पाप किया इसलिये वह अशुद्ध  
 वस्तु सी ठहरी  
 जितने उस का आदर करते थे सो उसे तुच्छ जानते  
 हैं इसलिये कि उन्होंने ने उस को नंगी देखा  
 सो वह कहरती हुई पीछे को फिरी जाती है ॥  
 उस की अशुद्धता उस के वस्त्र पर है उस ने अपना  
 अन्तसमय स्मरण न रक्खा था  
 इसलिये वह अद्भुत रीति से पद से उतारी गई  
 और कोई उसे शांति नहीं देता  
 हे यहोवा मेरे दुःख पर दृष्टि कर क्योंकि शत्रु ने  
 मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारी है ॥  
 द्रोहियों ने उस की सब मनभावनी वस्तुओं पर  
 हाथ बढ़ाया है  
 अन्यजातियां जिन के विषय तू ने आज्ञा दी थी  
 कि वे मेरी सभा में भागी न होने पाएँ  
 उन को उस ने अपने पवित्रस्थान ही में बुसी हुई  
 देखा है ॥  
 उस के सब निवासी कहरते हुए भोजनवस्तु  
 ढूँढ़ रहे हैं  
 उन्होंने ने जी में जी ले आने के लिये अपनी मन-  
 भावनी वस्तुएँ बेचकर भोजन लिया  
 हे यहोवा दृष्टि कर और ध्यान से देख क्योंकि मैं  
 तुच्छ हो गई हूँ ॥  
 हे सब यदोहियो क्या इस बात की तुम्हें कुछ  
 चिन्ता नहीं  
 दृष्टि करके देखा कि जो पीड़ा मुझ पर पड़ी है  
 और यहोवा ने कोप भड़कने के दिन मुझे  
 दी है

(१) वा की ।

- उस के तुल्य और पीड़ा कहां ॥  
 १३ ऊपर से उस ने मेरी हड्डियां में आग लगाई है  
 और वे उस से भस्म हो गईं  
 उस ने मेरे पैरों के लिये जाल लगाया और मुझ  
 को उलटा फेर दिया ॥  
 उस ने ऐसा किया कि मैं छोड़ी हुई और रोग से  
 लगातार लथलथ रहती हूँ ॥  
 १४ उस ने जुए की रस्सियों की नाईं मेरे अंगरार्थों  
 को अपने हाथ से कसा है  
 उस ने उन्हें बटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और  
 मेरा बल घटाया  
 जिन के साम्हने मैं खड़ी नहीं हो सकती उन्हीं  
 के वश मैं प्रभु ने मुझे कर दिया है ॥  
 १५ प्रभु ने मुझ में क सब पराक्रमी पुरुषों को  
 तुच्छ जाना  
 उस ने नियत पर्व का प्रचार करके लोगों को  
 मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस  
 डालें  
 प्रभु ने यहूदा की कुमारी कन्या को काल्ह में  
 पेशा है ॥  
 १६ इन बातों के कारण मैं रोती हूँ मेरी आंखों से  
 आंसू की धारा बहती रहती है  
 क्योंकि जिस शांति देनेहार के कारण मेरे जी में  
 जी आता था सो मुझ से दूर हो गया  
 मेरे लड़केवाले अकेले छोड़े गये इसलिये कि  
 शत्रु प्रबल हुआ है ॥  
 १७ सिध्यान हाथ फैलाये हुए है उस को कोई शांति  
 नहीं देता  
 यहोवा ने याकूब के विषय यह आज्ञा दी  
 है कि उस के चारों ओर के निवासी उस  
 के द्रोही हो जाएं  
 यरूशलेम उन के बीच अशुद्ध स्त्री सी हो गई है ॥  
 १८ यहोवा तो निर्दोष है क्योंकि मैं ने उस की आज्ञा  
 का उल्लंघन किया है  
 हे सब लोगो सुनो और मेरी पीड़ा को देखो  
 मेरे कुमार और कुमारियां बन्दुआई में चली  
 गई हैं ॥  
 १९ मैं ने अपने यारों को पुकारा पर उन्होंने ने मुझे  
 धोखा दिया  
 जब मेरे याजक और पुरनिये भोजनवस्तु इसलिये  
 छूट रहे थे कि खाने में उन के जी में जी आए  
 तब नगर ही में उन का प्राण छूट गया ॥

हे यहोवा दृष्टि कर क्योंकि मैं संकट में हूँ मेरी २०  
 अन्तर्द्वियां एंटी जायी हैं  
 मेरा हृदय उलट गया कि मैं ने बड़ा बलवा  
 किया है  
 बाहर तो मैं तलवार से निवेश होती हूँ और  
 घर में मृत्यु विराज रहा है ॥  
 उन्होंने ने सुना है कि मैं कहती हूँ मुझे कोई २१  
 शांति नहीं देता  
 मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति का समाचार  
 सुना है वे इस कारण हर्षित हो गये कि तू ही  
 ने यह किया है  
 पर जिस दिन का चचा तू ने प्रचार करके की  
 उस का तू दिखा भी दगा तब वे मेरे सराखे  
 हो जाएंगे ॥  
 उन की सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर २२  
 और जैसा तू ने मेरे सारे अंगरार्थों के कारण मुझे  
 दण्ड दिया वैसा ही उन का भा दण्ड दे  
 क्योंकि मैं बहुत ही कहती हूँ और मेरा हृदय  
 रोग से लथलथ है ॥

२. प्रभु ने सिध्यान की पुत्री को क्या ही  
 अपने काप के बादल से ढाप  
 दिया

उस ने इस्राएल की शाभा को आकाश से धरती  
 पर पटक दिया  
 और काप करन का दिन अमन पांवी की चोकी को  
 स्मरण नहीं किया ॥

प्रभु ने याकूब का सब वास्तवों का निदुरता से २  
 निगल लिया

उस ने रोप में आकर यहूदा की पुत्री के दड़ गड़े  
 को ढाकर मिट्टी में मिला दिया

उस ने हाकमों समेत राज्य का अविवत्र ठह-  
 राया है ॥

उस ने भड़कत हुए काप से इस्राएल के सींग को जड़ ३  
 से काट डाला

उस ने शत्रु का साम्हना करने से अपना दहिना  
 हाथ खींच लिया

और चारों ओर भस्म करती हुई लो की नाईं  
 याकूब को जला दिया है ॥

उस ने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया वह बैरी बनकर ४  
 दहिना हाथ बढ़ाये हुए खड़ा हुआ

- और जितने दृष्टि में मनमावने ये सब को घात  
किया  
सिन्धुओं की पुत्री के तम्बू पर उस ने आग की नाई  
अपनी जलजलाहट भड़का दी है ॥
- ५ प्रभु शत्रु बन गया उस ने इस्त्राएल को निगल  
लिया  
उस के सब महलों को उस ने निगल लिया उस  
के दृढ़ गढ़ों को उस ने भिगाड़ डाला  
और यहूदा की पुत्रों का रोना पाटना बहुत  
बढ़ाया है ॥
- ६ और उस ने अपना मरुडप धारी में के मचान की  
नाई धरयाई से गारा दिया  
अपने मिलापस्थान का उस ने नाश किया  
यहोवा ने सिन्धुओं में नियत पर्व और विश्रामादिन  
दोनों को विखरवा दिया  
और अपने मड़के हुए कोर से राजा और याजक  
दोनों को तिरस्कार किया है ॥
- ७ प्रभु ने आनों वेदा मन से उतार दी और अपना  
पावत्रस्थान अपमान के साथ तजा  
उस के महलों की भातों को उस ने शत्रुओं के  
वश कर दिया  
यहोवा के भवन में उन्होंने ने ऐसा कालाहल  
मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन था ॥
- ८ यहोवा ने सिन्धुओं की कुमारी की शहरपनाह  
तोड़ डालने का ठाना था  
सा उस ने डारी डाली और अपना हाथ नाश  
करने से नहीं खींच लिया  
और काठ और शहरपनाह दोनों से विलाप कराया  
वे दोनों एक साथ गिराये गये हैं ॥
- ९ उस के फाटक भूमि में धस गये हैं उस ने उन के  
वेड़ों को ताड़कर नाश किया  
उस का राजा और और हाकिम अन्यजातियों  
में रहने से व्यवस्थाहीन हो गये हैं  
और उस के नवीं यहोवा से दर्शन नहीं पाते ॥
- १० सिन्धुओं की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप  
बैठे हैं  
उन्होंने ने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट  
का फेंटा बांधा है  
यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर  
भूमि लों झुकाया है ॥
- ११ मेरी आँखें आँसू बहाते बहाते रह गईं मेरी  
अन्तड़ियाँ पेंटी जाती हैं

- मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा  
कलेजा फट गया  
क्योंकि बच्चे बरन दूधपिउत्र बच्चे भी नगर के  
चौकों में मूछित होते हैं ॥  
वे अपनी अपनी मा से कहते हैं अन्न और दाखमधु १२  
कदां है  
वे नगर के चौकों में घायल किये हुए मनुष्य की  
नाई मूछित होकर  
अपने अपने प्राण का अपनी अपनी माता की  
गोद में छोड़ते हैं ॥  
हे यरूशलेम की पुत्री मैं तुझ से क्या कहूँ मैं १३  
तेरी उपमा किस से दूँ  
हे सिन्धुओं की कुमारी कन्या में कौन सी वस्तु  
तेरे समान ढहराकर तुझे शान्ति दूँ  
क्या कि तेरा दुःख समुद्र का शगर है तुझे कौन  
चगा कर सकता है ॥  
मेरे नाबियों ने दर्शन का दावा करके तुझ से व्यर्थ १४  
और मूर्खता की बातें कही थीं  
और तेरा अधर्म प्रगट न किया था नहीं तो  
तेरी बन्धुआई न होनी पाती  
उन्होंने ने तेरे लिये व्यर्थ के भारी वचन  
बताये हैं  
जा देश से निकाल दिये जाने के कारण  
हुए हैं ॥  
सब बटोही तुझ पर ताली पीटते हैं १५  
वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते  
और सिर हिलाते हैं कि  
क्या यह वह नगरी है जिसे परमसुन्दर और सारी  
पृथिवी के हर्ष का कारण कहते थे ॥  
तेरे सब शत्रुओं ने तुझ पर मुँह फैलाया है १६  
वे ताली बजाते और दाँत पीसते हैं वे कहते हैं कि  
हम उसे निगल गये हैं  
जिस दिन की हम बाट जोहते थे सो तो यही है  
वह हम को मिल गया हम उस को देख  
चुके हैं ॥  
यहोवा ने जो कुछ ठाना था सोई किया १७  
भी है  
जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया सोई  
उस ने पूरा किया  
उस ने निदुरता से तुझे दा दिया  
और शत्रुओं को तुझ पर आनन्दित किया  
और तेरे द्रोहियों के साँग को ऊँचा किया है ॥



- १८ वे प्रभु की ओर तन मन से चिल्लाये हैं  
हे सियोन की कुमारी की शहरपनाह अपने आस  
रात दिन नदी की नाई बहाती रह  
तनिक भी विश्राम न ले न तेरी आंख की पुतली  
थम जाए ॥
- १९ रात के पहर पहर के आदि में उठकर चिल्लाया  
कर  
प्रभु के सन्मुख अपने मन की बातों की धारा  
बांध<sup>१</sup>  
तेरे जां बालबच्चे एक एक सड़क के सिरे पर भूख  
से मूर्च्छित हो रहे हैं  
उन के प्राण के निमित्त अपने हाथ उस की  
ओर फैला ॥
- २० हे यहोवा दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तू ने  
यह सब दुःख किस को दिया है  
क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात् अपनी गोद<sup>२</sup> के  
बच्चों को खा डालें  
हे प्रभु क्या याजक और नबी तेरे पवित्रस्थान में  
घात किये जाएं ॥
- २१ सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर  
पड़े हैं  
मेरी कुमारियां और जवान लोग तलवार से गिरे  
तू ने कोप करने के दिन उन्हें घात किया तू ने  
निडुरता के साथ बध किया ॥
- २२ तू ने नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर से  
मेरे भय के कारणों को बुलाया है  
और यहोवा के कोप के दिन न तो कोई भाग  
निकला और न कोई बच रहा है  
जिन को मैं ने गोद<sup>३</sup> में लिया और पोंस पोंसकर  
बढ़ाया था मेरे शत्रु ने उन का अन्त कर  
डाला है ॥
- ३. उस** के रोप की छड़ी से जो दुःख  
भोगनेहारा है वही पुरुष मैं हूँ ॥
- २ मुझ को वह ले जाकर उजियाले में नहीं अधि-  
यारे ही में जलाता है ॥
- ३ मेरे ही विरुद्ध उस का हाथ दिन भर बार बार  
उठता<sup>४</sup> है ॥
- ४ उस ने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया  
और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है ॥

- उस ने मुझे रोकने के लिये कोट बनाया और मुझ ५  
को कठिन दुःख और श्रम से घेरा है ॥
- उस ने मुझे बहुत दिन के मेरे हुए लोगों के ६  
समान अन्धेरे स्थानों में बसा दिया ॥
- मेरे चारों ओर उस ने बाड़ा बांधा इस से मैं ७  
निकल नहीं सकता उस ने मुझे भारी सांकल  
से जकड़ा है<sup>५</sup> ॥
- फिर जब मैं चिल्ला चिल्लाके दोहाई देता हूँ तब ८  
वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता ॥
- मेरे मार्गों को उस ने गड़े हुए पत्थरों से छेंका ९  
मेरी डगरो को उस ने टेढ़ी किया है ॥
- वह मेरे लिये घात में बैठे हुए रीछ और ब्रका १०  
लगाये हुए सिंह के समान है ॥
- उस ने मेरे मार्गों को टेढ़ा किया उस ने मुझे फाड़ ११  
डाला उस ने मुझ को उजाड़ दिया है ॥
- उस ने धनुष चढ़ाकर मुझे अपनी तीर का १२  
निशाना ठहराया है ॥
- उस ने अपनी तीरों से मेरे गुदों को बेध १३  
दिया है ॥
- मुझ पर मेरे सब लोग हंसते और मुझ पर १४  
लगते गीत दिन भर गाते हैं ॥
- उस ने मुझे कठिन दुःख से<sup>६</sup> भर दिया और नाग- १५  
दौना पिलाकर तृप्त किया है ॥
- और उस ने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला १६  
और मुझे राख से ढांप दिया है ॥
- और तू ने मुझ को मन से उतारके कुशल से १७  
रहित किया है मुझे कल्याण विसर  
गया है ॥
- और मैं ने कहा कि मेरा बल नाश हुआ और मेरी १८  
जो आशा यहोवा पर थी सो टूट गई है ॥
- मेरा दुःख और मारा मारा फिरना मेरा नागदीन १९  
और और विष का पीना स्मरण कर ॥
- मैं उन्हें भली भांति स्मरण रखता हूँ इस से मेरा २०  
जीव दया जाता है ॥
- इस का स्मरण करके मैं इसी के कारण आशा २१  
रखूंगा ॥
- हम मिट नहीं गये यह यहोवा की महाकरुणा का २२  
फल है क्योंकि उस का दया करना बन्द  
नहीं हुआ ॥

(१) मूल में अपना हृदय जल की नाई उगडेल । (२) मूल में हथेली ।  
(३) मूल में उलटता ।

(४) मूल में विष । (५) मूल में मेरी सांकल भारी की ।  
(६) मूल में कण्ठवाहदों से ।

- २३ वह भोर भोर को नई होती रहती है तेरी सच्चाई  
बड़ी तो है ॥
- २४ मैं ने मन में कहा है कि यहोवा मेरा भाग है इस  
कारण मैं उस से आशा रखूंगा ॥
- २५ जो यहोवा की बात जोहते और उस के पास  
जाते हैं उन के लिये यहोवा भला है ॥
- २६ यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप  
रहना भला है ॥
- २७ पुरुष के लिये जवानी में जूआ उठाना भला है ॥
- २८ वह यह जानकर अकेला चुपचाप बैठा रहे कि  
उसी ने मुझ पर यह बोझ डाला है ॥
- २९ वह यह कहकर अपनी नाक भूमि पर रगड़े कि  
जानिये कुछ आशा हो ॥
- ३० वह अपना गाल अपने मारनेहारों की आंर फेरें  
और नामधराई से बहुत ही भर जाए ॥
- ३१ क्योंकि प्रभु मन से सदा उतारे नहीं रहता ॥
- ३२ चाहे वह दुःख भी दे तौभी अपनी करुणा की  
यहुतायत के कारण वह दया भी करता है ॥
- ३३ क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता  
न दुःख देता है ॥
- ३४ पृथिवी भर के बन्धुओं को पांव के तले दल डालना,  
किसी पुरुष का हक परमप्रधान के साम्हने मारना  
और किसी मनुष्य का मुकद्दमा बिगाड़ना इन तीन  
कामों को प्रभु देख नहीं सकता ॥
- ३७ जब प्रभु ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि जो  
बचन कहे सो पूरा हो ॥
- ३८ विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परमप्रधान की  
आज्ञा से नहीं होते ॥
- ३९ जीता मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाये पुरुष अपने पाप के  
दण्ड को क्यों बुरा माने ॥
- ४० हम अपने चालचलन को ध्यान से परखें और  
यहोवा की ओर फिरें ॥
- ४१ हम स्वर्गवासी ईश्वर की आंर हाथ फैलाएं और  
मन भी लगाएं ॥
- ४२ हम ने तो अपराध और बलवा किया है और तू ने  
क्षमा नहीं की ॥
- ४३ तेरा कोप हम पर भूम रहा तू हमारे पीछे पड़ा तू  
ने बिना तरस खाये घात किया है ॥
- ४४ तू ने अपने को मेघ से घेर लिया है कि प्रार्थना  
तुझ लौं न पहुँच सके ॥

(१) मूल में और जो जीव ।

(२) मूल में वह अपना मुँह मिट्टी में देवे ।

- तू ने हम को जाति जाति के लोगों के बीच कूड़ा  
कुर्कुट सा ठहराया है ॥
- हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना अपना मुँह  
फैलाया है ॥
- भय और गड़हा उजाड़ और विनाश ये ही हमारे  
भाग हुए हैं ॥
- मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के  
कारण जल की धाराएं बह रही हैं ॥
- मेरी आंख गं आंख तब लों लगातार बहते रहेंगे  
जब लों यहोवा स्वर्ग से मेरी आंर न देखे ॥ ५०
- अपनी नगरी की सब स्त्रियों का हाल देखने से  
मेरा दुःख बढ़ता है ॥ ५१
- मेरे जो अकारण शत्रु हैं उन्होंने ने चिड़िया का सा  
मेरा आंर निर्दयता से किया ॥
- उन्होंने ने मुझे गड़हे में डालकर मेरे जीवन का  
अन्त कर दिया और मेरे ऊपर पत्थर डाला  
है ॥ ५२
- जल मेरे सिर पर से बह गया मैं ने कहा मैं नाश  
हुआ ॥ ५३
- हे यहोवा गहरे गड़हे में से मैं ने तुझ से प्रार्थना  
की है ॥ ५४
- तू ने मेरी सुनी थी मैं जो दोहाई हांक हांककर  
देता हूँ उस से कान न फेर ले ॥ ५५
- जिस दिन मैं ने तुझे पुकारा उसी दिन तू ने निकट  
आकर कहा मत डर ॥ ५६
- हे प्रभु तू ने मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा प्राण बचा  
लिया है ॥ ५७
- हे यहोवा जो अन्याय मुझ पर हुआ सो तू ने  
देखा है सो तू मेरा न्याय चका ॥ ५८
- उन्होंने ने जो पलटा मुझ से लिया और जो कल्पनाएं  
मेरे विरुद्ध कीं सो भी तू ने देखी हैं ॥ ५९
- हे यहोवा वे जो निन्दा करते और मेरे विरुद्ध  
कल्पनाएं करने हैं,  
मेरे विरोधियों के बचन भी और जो कुछ वे मेरे  
विरुद्ध लगातार मोचने हैं सो तू ने जाना है ॥ ६०
- उन का उठना बैठना ध्यान से देख वे मुझ पर  
लगते हुए गीत गाते हैं ॥ ६१
- हे यहोवा तू उन के कामों के अनुमार उन को  
बदला देगा ॥ ६२

(३) मूल में मेरी आंख मेरे मन को दुःख देती है ।

(४) मूल में चिड़िया ।

(५) मूल में होंठ ।

६५ तू उन का मन सुन्न कर देगा उन के लिये तेरे  
साप का यही फल होगा ॥

६६ तू उन को कोप से खदेड़ खदेड़ कर यहोवा की  
धरती पर मेरे विनाश करेगा ॥

**४. सोना** क्या ही खोटा हो गया है  
अत्यन्त खरा सोना क्या ही  
बदल गया है पवित्रस्थान के पत्थर तो एक एक  
सड़क के सिरे पर फेंक दिये गये हैं ॥

२ सिधोन के उत्तम पुत्र<sup>(१)</sup> जो कुन्दन के तुल्य हैं  
सो कुम्हार के बनाये हुए मिट्टी के घड़ों के समान  
क्या ही तुच्छ गिने गये हैं ॥

३ गीदडिन भी धन लगाकर अपने बच्चों को  
पिलाती है  
पर मेरे लोगों की बेटी बन के शुतुर्मुर्गों के तुल्य  
निर्दय हो गई है ॥

४ दूधपिउवे बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू में  
चिपट गई  
बालबच्चे रोटी मांगने हैं पर कोई उन को नहीं  
देता ॥

५ जो आगे स्वादिष्ट भोजन खाते थे सो अब  
सड़कों में विकल फिरते हैं  
जो लाही रंग के वस्त्र में पले थे सो घूरों पर  
लोटते हैं ॥

६ और मेरे लोगों की बेटी का अधर्म मदोम  
के पाप से भी अधिक टहरा  
जो किसी के हाथ डाले बिना क्षण भर में उलट  
गया ॥

७ उन के नाजीर हिम में भी निर्मल और दूध से  
अधिक उजल थे  
उन की देह मंगों में अधिक लाल और उन की  
सुन्दरता नीलमणि की सी थी ॥

८ पर अब उन का रूप अन्धकार में भी अधिक  
काला है ये सड़कों में चीन्हें नहीं जाते  
उन का चमड़ा हड्डियों में सट गया वह तो लकड़ी  
के समान सूख गया है ॥

९ तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुआओं से कम  
दुःखी हैं  
क्योंकि इन का प्राण तो खेत की उपज बिना  
भूख के मारे भूरता जाता है ॥

दयालु स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने ही हाथों से १०  
सिभाया है

मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उन का  
आहार हुए ॥

यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रगट की उस ने ११  
अपना कोप बहुत ही भड़काया  
और सिधोन में ऐसी आग लगाई है जिस से उस  
की नेत्र तक भस्म हो गई है ॥

पृथिवी का कोई राजा वा जगत का कोई रहने- १२  
हारा इस की प्रतीति कभी न कर सकता था-  
कि द्रोही और शत्रु यरुशलेम के पाठकों के  
भीतर घुसने पाएंगे ॥

यह उस के नवियों के पापों और उस के याजकों १३  
के अधर्म के कामों के कारण हुआ है  
क्योंकि वे उस के बाँच धर्मियों का खूना करने  
आये ॥

अब वे सड़कों में अंधे से मारे मारे फिरते और १४  
मानों लोह की धारा से वहाँ लों अशुद्ध हैं  
कि कोई उन के बख्त नहीं छू सकता ॥

लोग उन को पुकारते हैं कि रे अशुद्ध लोगों हट १५  
जाओ हट जाओ हम को मत छूओ  
जब वे भागकर मारे मारे फिरने लगे तब अन्य-  
जाति के लोगों ने कहा वे आगे के यहाँ  
टिकने न पाएंगे ॥

यहोवा ने अपने प्रताप से उन्हें तित्तर वित्तर १६  
किया वह उन पर फिर दया दृष्टि न करेगा  
न तो याजकों का सम्मान न पुरनियों पर कुल  
अनुग्रह किया गया ॥

हमारी आखें सहायता की वाट व्यर्थ जोहते १७  
जोहते रह गई हैं

हम ऐसी एक जाति का मार्ग लगातार देखते आये  
हैं जो बचा नहीं सकती ॥

वे लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं कि हम अपने १८  
नगर के चौकों में भी नहीं चल सकते

हमारा अन्त निकट आया हमारी आयु पूरी हुई  
हमारा अन्न आ गया है ॥

हमारे खदेड़नेहारे आकाश के उकाओं में भी अधिक १९  
वेग चलते थे

वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़े और जंगल में  
हमारे लिये घात लगाते थे ॥

(१) मूल में आकाश के तले से । (२) मूल में फीके रंग का ।

(३) मूल में बेटे । (४) मूल में घूरों को गले लगाते हैं ।

(५) मूल में उँटैला ।

- २० यद्देवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण<sup>१</sup> था  
और जिस के विषय हम ने सोचा था कि  
अन्य जातियों के बीच हम उसी के छत्र के  
नीचे<sup>२</sup> जीते रहेंगे  
सो उन के खोदे हुए गड़हों में पकड़ा गया ॥  
२१ हे एदोम की पुत्री तू जो ऊस देश में रहती है  
हर्षित और आनन्दित रह  
पर कटोरा तुझ लों भी पहुंचेगा और तू मतवाली  
होकर अपने को नंगी करेगी ॥  
२२ हे सियोन की पुत्री तेरे अधर्म का फल भुगत  
गया वह तुझे फिर बंधुआई में न  
जाने देगा  
हे एदोम की पुत्री वह तेरे अधर्म का दण्ड देगा  
और तेरे पापों को प्रगट करेगा ॥
- ५ हे यद्देवा स्मरण कर कि हम पर क्या  
क्या बीता है  
हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को देख ॥  
२ हमारा भाग परदेशियों के  
हमारे घर उपरी लोगों के हो गये हैं ॥  
३ हम अनाथ और बपमूए हो गये  
हमारी माताएं विधवा सी हुई हैं ॥  
४ हम पानी मेल लेकर पीते हैं  
हम को लकड़ी दाम से मिलती है ॥  
५ खदेड़नेहारे हमारी गर्दन पर टूट पड़े हैं  
हम थक गये और हमें विश्राम नहीं मिलता ॥  
६ हम मिस्र के अधीन हो गये  
और अशूर के भी कि पेट भर सकें ॥  
७ हमारे पुरखाओं ने पाप किया और जाते रहे  
और हम को उन के अधर्म के कामों का भार  
उठाना पड़ा ॥  
८ हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं  
उन के हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता ॥

(१) मूल में हमारे नधनों का प्राण । (२) मूल में नी  
काया में ।

- हम उस तलवार के कारण जो जंगल में ९  
चलती है  
प्राण जोखिम में डालकर अपनी भोजनवस्तु ले  
आते हैं ॥  
भूख की आग के कारण १०  
हमारा चमड़ा तंदूर की नाई जल रहा है ॥  
सियोन में स्त्रियां ११  
और यहूदा के नगरों में कुमारियां अष्ट की गईं ॥  
हाकिम हाथ के बल टांगे गये १२  
और पुरनियों का कुछ आदरमान न किया गया ॥  
जवानों को चर्की उठानी पड़ती १३  
और लड़केवाले लकड़ी के बोझ उठाये ठोकर  
खाते जाते हैं ॥  
अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते १४  
जवानों का गीत सुनाई नहीं पड़ता ।  
हमारे मन का हर्ष जाता रहा १५  
हमारा नाचना विलाप से बदल गया है ॥  
हमारे गिर पर का मुकुट गिर पड़ा १६  
हम पर हाथ कि हम ने पाप किया है ॥  
इसी कारण हमारा हृदय निर्धल हुआ १७  
इन्हीं बातों से हमारी आँखें धुन्धली पड़ गईं  
हैं ॥  
सियोन पर्वत उजाड़ पड़ा है १८  
इसलिये सियार उस पर घूमते हैं ॥  
हे यद्देवा तू तो सदा लों विराजमान रहेगा १९  
तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा ॥  
तू ने हम को क्यों सदा के लिये बिसरा २०  
दिया  
क्यों बहुत काल के लिये हमें छोड़ दिया है ॥  
हे यद्देवा हम को अपनी ओर फेर तब हम २१  
फिरेंगे  
हमारे दिन बंदोब के प्राचीन काल की नाई ज्यों  
के त्यों कर दे ॥  
तू ने हम से थिल्कुल तो हाथ नहीं उठाया २२  
होगा  
तू ऐसा अत्यन्त क्रोधित न हुआ होगा ॥

उठाकर ले गया और मैं कठिन दुःख से भरा<sup>१</sup> और मन में जलता हुआ चला गया और यहोवा की शक्ति १५ मुझ में प्रबल थी<sup>२</sup> । सो मैं उन बन्धुओं के पास आया जो कबार नदी के तीर पर तेलाबीब में के जहां वे रहते थे वहीं मैं आया और वहां सात दिन लों उन के बीच विस्मित हो बैठा रहा ॥

१६ फिर सात दिन के बीतने पर यहोवा का यह वचन १७ मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के सन्तान मैं ने तुम्हें इस्राएल के घराने के लिये पहरेआ ठहराया है सो तू मेरे मुंह की बात सुनकर मेरी ओर से उन्हें चिताना । १८ जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और तू उस को न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिस से वह सचेत हो अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीता रहे तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा पर उस के १९ खून का लेखा मैं तुम्हीं से लूंगा । पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेहीगा पर २० तू अपना प्राण बचाएगा । फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे और मैं उस के साम्हने ठोकर रखूँ तो वह मर जायगा तू ने जो उस को नहीं चिताया इसलिये वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा और जो धर्म के कर्म उस ने किये हैं उन की मुधि न ली जाएगी पर उस के खून का लेखा मैं तुम्हीं २१ से लूंगा । पर यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि तू पाप न कर और वह पाप न करे तो वह चिताए जाने के कारण निश्चय जीता रहेगा और तू अपना प्राण बचाएगा ॥

२२ फिर यहोवा की शक्ति<sup>३</sup> वहीं मुझ पर हुई और उस ने मुझ से कहा उठकर मैदान में जा और वहां मैं २३ तुझ से बातें करूंगा । तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का तेज जैसा मुझे कबार नदी के तीर पर वैसा ही यहां भी देख पड़ता २४ है और मैं मुंह के बल गिरा । तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया फिर वह मुझ से कहने लगा जा अपने घर के भीतर घुसा रह । २५ और हे मनुष्य के सन्तान सुन वे लोग तुम्हें रस्सियों से जकड़ कर बांध रखेंगे और तू निकलकर उन के २६ बीच जाने न पाएगा । और मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा जिस से तू मौन रह कर उन का डांटेनेहारा २७ न हो क्योंकि वे बलवा करनेहारे घराने के हैं । पर

(१) मूल में मैं कड़वा ।

पर प्रबल था ।

(२) मूल में यहोवा का हाथ मुझ

(३) मूल में का हाथ ।

जब जब मैं तुझ से बातें करूँ तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उन से ऐसा कहना कि प्रभु यहोवा यों कहता है जो सुने सो सुने और जो न सुने सो न सुने वे तो बलवा करनेहारे घराने के हैं ही ॥

४. फिर हे मनुष्य के सन्तान तू एक ईंट ले और उसे अपने साम्हने रखकर

उस पर एक नगर अर्थात् यरूशलेम का चित्र खींच । तब उसे घेर अर्थात् उस के विरुद्ध कोट बना और उस के साम्हने धुस बांध और छावनी डाल और उस के चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा । तब तू लोहे की थाली लेकर उस को लोहे की शहरपनाह मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर तब अपना मुंह उस की ओर कर और वह घेरा जाए इस रीति तू उसे घेर रख । यह इस्राएल के घराने के लिये चिन्ह ठहरेगा ॥

फिर तू अपने बायें पांजर के बल लेटकर इस्राएल के घराने का अधर्म उस पर मान जितने दिन तू उस के बल लेटा रहेगा उतने दिन लों उन लोगों के अधर्म का भार सहता रह । मैं ने तो उन के अधर्म के बरस तेरे लिये दिन करके ठहराये अर्थात् तीन सौ नब्बे दिन सो तू उतने दिन तक इस्राएल के घराने के अधर्म का भार सहता रह । और फिर जब इतने दिन पूरे हों जाएं तब अपने दहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना मैं ने उस के लिये भी तेरे लिये एक एक बरस की सन्ती एक एक दिन अर्थात् चात्तीस दिन ठहराये हैं । सो तू यरूशलेम के घेरने के लिये बांह उघाड़े अपना मुंह उधर करके उस के विरुद्ध नबूवत करना । और सुन मैं तुम्हें रस्सियों से जकड़ूंगा और जब लों तेरे उसे घेरने के वे दिन पूरे न हों तब लों करवट न ले सकेंगा । और तू गंहुं जब सेम मसूर बाजरा और कठिया गंहुं लेकर एक वासन में रख और उन से रोटी बनाया करना जितने दिन तू अपने पांजर के बल लेटा रहेगा उतने अर्थात् तीन सौ नब्बे दिन लों उसे खाया करना । और जो भोजन तू खाए सो तौल तौलकर खाना अर्थात् दिन दिन बीस बीस शेकेल भर खाया करना और उसे समय समय पर खाना । और पानी भी तू माप मापकर पिया करना अर्थात् दिन दिन हीन का छठवां अंश पीना और उस को समय समय पर पीना । और अपना वह भोजन जब की रोटियों की नाई बनाकर खाया करना और उस को मनुष्य की बिष्ठा से उन के देखते बनाया करना । फिर यहोवा ने कहा इसी प्रकार से इस्राएल उन जातियों के

बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्ध ही खाया करेंगे जहां मैं  
 १४ उन्हें बरबस पहुंचाऊंगा। तब मैं ने कहा हाय प्रभु  
 यहोवा सुन मेरा जीव कभी अशुद्ध नहीं हुआ और न  
 मैं ने बचपन से ले अब लों अपनी मृत्यु से मरे हुए  
 वा फाड़े हुए पशु का मांस खाया और न किसी प्रकार  
 १५ का धिनौना मांस मरे मुंह में कभी गया है। उस ने  
 मुझ से कहा सुन मैं ने तेरे लिये मनुष्य की विष्टा की  
 सन्ती गोबर ढहराया है सो तू अपनी रोटी उसी से  
 १६ बनाना। फिर उस ने मुझ से कहा हे मनुष्य के सन्तान  
 सुन मैं यरूशलेम में अन्नरूपी आधार को दूर करूंगा  
 सो वहां के लोग तौल तौलकर और चिन्ता कर करके  
 रोटी खाया करेंगे और माप मापकर और विस्मित हो  
 १७ होकर पानी पिया करेंगे। और इस से उन्हें रोटी  
 और पानी की घटी होगी और वे सब के सब विस्मित  
 होंगे और अपने अधर्म में फसे हुए सूख जाएंगे ॥

**५. फिर** हे मनुष्य के सन्तान एक पानी

तलवार ले और उसे नाऊ के  
 छुरे के काम में लाकर अपने सिर और डाढ़ी के बाल  
 मूड़ तब तौलने का काटा लेकर बालों का भाग कर।  
 २ जब नगर के घिरने के दिन पूरे होंगे तब नगर के भीतर  
 एक तिहाई आग में डालकर जलाना और एक तिहाई  
 लेकर चारों ओर तलवार से मारना और एक तिहाई  
 को पवन में उड़ाना और मैं तलवार खींचकर उस के  
 ३ पीछे चलाऊंगा। तब इन में से थोड़े से बाल लेकर  
 ४ अपने कपड़े की छोर में बांधना। फिर इन में से भी  
 थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में  
 जल जाए तब उसी से एक लौ भड़ककर इस्राएल के  
 सारे घराने में फैल जाएगी ॥

५ प्रभु यहोवा यों कहता है कि यरूशलेम ऐसी ही  
 है मैं ने उस को अन्य जातियों के बीच ढहराया और  
 ६ वह चारों ओर देश देश से घिरी है। और उस ने  
 मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्यजातियों से  
 अधिक दुष्टता की और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों  
 ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है क्योंकि  
 उन्होंने ने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर  
 ७ नहीं चले। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है कि  
 तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से अधिक  
 हुल्लड़ मचाते और न मेरी विधियों पर चले हो न मेरे  
 नियमों को माना है और न अपने चारों ओर  
 ८ की जातियों के नियमों के अनुसार किया, इस

कारण प्रभु यहोवा यों कहता है कि सुन मैं आप तेरे  
 विरुद्ध हूं और अन्यजातियों के देखते तेरे बीच न्याय के  
 काम करूंगा। और तेरे सब धिनौने कामों के कारण ९  
 मैं तेरे बीच ऐसा काम करूंगा जैसा न अब लों किया  
 है न आगे का फिर करूंगा। सो तेरे बीच लड़केवाले १०  
 अपने अपने बाप का और बाप अपने अपने लड़केवालों  
 का मांस खाएंगे और मैं तुझ को दण्ड दूंगा और तेरे  
 सब बचे हुआओं को चारों ओर वित्तर वित्तर करूंगा। सो ११  
 प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि अपने जीवन की सोह तू  
 ने जो मेरे पवित्रस्थान को अपनी सारी धिनौनी मूर्तों  
 और सारे धिनौने कामों से अशुद्ध किया है इसलिये मैं  
 तुझे घटाऊंगा और दया की दृष्टि तुझ पर न करूंगा  
 और तुझ पर कुछ भी कौमलता न करूंगा। तेरी एक १२  
 तिहाई तों मरी से मरेगी वा तेरे बीच भूख से मर मिटेगी  
 और एक तिहाई तंर आस पास तलवार से मारी जाएगी  
 और एक तिहाई को मैं चारों ओर वित्तर वित्तर करूंगा  
 और तलवार खींचकर उन के पीछे चलाऊंगा। इस १३  
 प्रकार से मेरा कोप शान्त हांगा मैं अपनी जलजलाहट  
 उन पर पूरी रीति से भड़काकर शान्ति पाऊंगा और जब  
 मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूंगा  
 तब वे जान लेंगे कि मुझ यहांवा ही ने जलन में आकर  
 यह कहा है। और मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों १४  
 के बीच सब बटोहियों के देखते उजाड़ूंगा और तेरी  
 नामधराई कराऊंगा। सो जब मैं तुझ को कोप और १५  
 जलजलाहट और रिसवाली सुदृकियों के साथ दण्ड दूंगा  
 तब तेरे चारों ओर की जातियों के साम्हने नामधराई  
 ठट्ठा शिक्षा और विस्मय हांगा क्योंकि मुझ यहांवा ने यह  
 कहा है। यह तब हागा जब मैं उन लोगों का नाश करने १६  
 के लिये तुम पर महंगी तीखे के तार चलाऊं। तुम्हारे  
 बीच महंगी बड़ाऊंगा और तुम्हारे अन्नरूपी आधार को  
 दूर करूंगा, और मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जन्तु १७  
 भेजूंगा जो तुम्हें निःसन्तान करेंगे और मरी और मृन  
 तुम्हारे बीच चलते रहेंगे और मैं तुझ पर तलवार चल  
 वाऊंगा मुझ यहांवा ने यह कहा है ॥

**६. फिर** यहोवा का यह वचन मेरे पास  
 पहुंचा कि, हे मनुष्य के २

सन्तान अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके  
 उन के विरुद्ध नव्रवत कर। और कह कि हे इस्राएल ३  
 के पहाड़े प्रभु यहोवा का वचन सुनो प्रभु यहोवा पहाड़ों  
 और पहाड़ियों से और नालों और तराहियों से यों

कहता है कि सुनो मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा और  
 ४ पूजा के तुम्हारे ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा। और  
 तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं  
 तोड़ी जाएंगी और मैं तुम में के मारे हुआओं को तुम्हारी  
 ५ मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इस्राएलियों की लीयों को  
 उन की मूर्तों के साम्हने रखवूंगा और उन की हाड्डियों  
 ६ को तुम्हारी वेदियों के आस पास छितरा दूंगा। तुम पर  
 के जितने बसे बसाये नगर हैं सो सब उजड़ जाएंगे और  
 पूजा के ऊंचे स्थान उजाड़ हो जाएंगे कि तुम्हारी वेदियां  
 उजड़ें और ढाई जाएं और तुम्हारी मूर्तें जाती रहें  
 और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएं और  
 ७ तुम पर जो कुछ बना है सो मिट जाए। और तुम्हारे  
 बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लांगे कि मैं  
 ८ यहोवा हूँ। तौभी मैं कितनों को बचा रखवूंगा सो जब  
 तुम देश देश में तित्तर बित्तर हांगे तब अन्यजातियों के  
 बीच तलवार से बचे हुए तुम्हारे कुछ लोग पाए जाएंगे।  
 ९ और तुम्हारे वं बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिन  
 में वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे और वह  
 भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया  
 है और हमारी व्यभिचारिन की सी आंखें मूर्तों पर  
 कैसे लगी हैं जिस से यहोवा का मन कैसा टटा है।  
 इस रीति ने उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने  
 सारे धिनौने काम करके की है अपने लेखे में धिनौने  
 १० ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ और मैं ने  
 उन की यह सारी हानि करने का जो कहा है सो व्यर्थ  
 नहीं कहा ॥

११ प्रभु यहोवा यों कहता है कि अपना हाथ दे मार-  
 कर और अपना पांव पटककर कह हाय हाय इस्राएल  
 के घराने के सारे धिनौने कामों पर वे तलवार भूख और  
 १२ मरी से नाश हो जाएंगे। जो दूर हो सो मरी से मरंगा  
 और जो निकट हो सो तलवार से मार डाला जाएगा  
 और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए सो भूख  
 से मरेगा इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी  
 १३ रीति से उतारूंगा। और जब हर एक ऊंची पहाड़ी  
 और पहाड़ों की हर एक चाटी पर और हर एक हर  
 पेड़ के नीचे और हर एक घने बांजवृक्ष की छाया में और  
 जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों का सुखदायक सुगंध  
 द्रव्य चढ़ाते हैं वहां वहां उन में के मारे हुए लोग अपनी  
 वेदियों के आस पास अपनी मूर्तों के बीच पड़े रहेंगे  
 १४ तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपना  
 हाथ उन के विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे धरों समेत

(१) मूल में तुम्हारी ।

जंगल से ले दिबला की ओर लों उजाड़ ही उजाड़ कर  
 दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

## ७. फिर

यहोवा का यह वचन मेरे पास  
 पहंचा कि हे मनुष्य के सन्तान २  
 प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय यों कहता है  
 कि अन्त हुआ चारों कोनो समेत देश का अंत आ गया  
 है। तेरा अन्त अभी आ गया और मैं अपना कोप ३  
 तुझ पर भड़काकर तेरे चालचलन के अनुसार तुझे दण्ड  
 दूंगा और तेरे सारे धिनौने कामों का फल तुझे दूंगा।  
 और मेरी दयादृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कामलता ४  
 करूंगा तेरे चालचलन का फल तुझे दूंगा और तेरे  
 धिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तू जान लेगा कि मैं  
 यहोवा हूँ ॥

प्रभु यहोवा यों कहता है कि विपत्ति है वह एक ५  
 ही विपत्ति है देखो वह आया चाहती है। अन्त आ गया ६  
 सब का अन्त आया है वह तेरे विरुद्ध जागा है देखो वह  
 आया चाहता है। हे देश के निवासी तेरे लिये चक्र ७  
 घूम चुका समय आ गया दिन नियरा गया पहाड़ों पर  
 आनन्द के शब्द का दिन नहीं हुआ ही का होगा। अब ८  
 थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा  
 और तुझ पर पूरा कोप करूंगा और तेरे चालचलन  
 के अनुसार तुझे दण्ड दूंगा और तेरे सारे धिनौने कामों  
 का फल तुझे भुगताऊंगा। और मेरी दयादृष्टि तुझ पर ९  
 न होगी न मैं तुझ से कामलता करूंगा। बरन तुझे तेरी  
 चालचलन का फल भुगताऊंगा और तेरे धिनौने पाप  
 तुझ में बने रहेंगे तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा  
 मारनेहारा हूँ। देखो उम दिन को देखो वह आया १०  
 चाहता है चक्र अभी घूम चुका दण्ड फूल चुका अभि-  
 मान फूला है। उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दण्ड बन ११  
 गया न तो उन में से कोई रह जाएगा और न उन की  
 भीड़ भाड़ वा उन के धन में से कुछ रहेगा और न उन  
 में से किसी के लिये बिलाप सुन पड़ेगा। समय आ १२  
 गया दिन नियरा गया न तो माल लेनेहारा आनन्द  
 और न बेचनेहारा शोक करे क्योंकि उस की सारी भीड़  
 भाड़ पर कोप भड़क उठा है। सो चाहे वे जीते रहें तौभी १३  
 बेचनेहारा बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा  
 क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़भाड़ पर घटेगी  
 कोई न लौटेगा बरन कोई मनुष्य जो अधर्म में जीता १४  
 रहता है बल न पकड़ सकेगा। उन्होंने ने नरसिगा फूका  
 और सब कुछ तैयार कर दिया पर युद्ध में कोई नहीं

(२) मूल में उरडेलूगा ।

जाता क्योंकि देश की सारी भीड़ भाड़ पर मेरा कोप  
 १५ भड़का हुआ है। बाहर तो तलवार और भीतर महुंगी  
 और मरी हैं जो मैदान में हो सो तलवार से मरेगा और  
 जो नगर में हो सो भूख और मरी से मारा जाएगा।  
 १६ और उन में से जो बच निकलेंगे सो बचेंगे तो सही  
 पर अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों  
 में रहनेहारे कबूतरों की नाई पहाड़ों के ऊपर  
 १७ विलाप करते रहेंगे। सब के हाथ ढीले और सब के  
 १८ घुटने अति निर्बल हो जाएंगे। और वे कमर  
 में टाट कसेंगे और उन के रोएं खड़े होंगे सब के मुंह  
 १९ सूख जाएंगे और सब के मिर मूड़े जाएंगे। वे अपनी  
 चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उन का सोना मैली वस्तु  
 ठहरेगा यहोवा की जलन के दिन उन का सोना चांदी  
 उन को बचा न सकेगी न उस से उन का जी सन्तुष्ट  
 होगा न उन के पेट भरेंगे क्योंकि वह उन के अधर्म के  
 २० ढोकर का कारण हुआ है। उन का देश जो शोभायमान  
 शिरोमणि था उस के विषय उन्होंने ने गर्व ही गर्व करके  
 उस में अपनी धिनौनी वस्तुओं की मूर्तें और और  
 धिनौनी वस्तुएं बना रखीं इस कारण मैं ने उसे उन के  
 २१ लिये मैली वस्तु ठहराया है। और मैं उसे लूटने के लिये  
 परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिये पृथिवी के  
 दुष्ट लोगों के वश कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर  
 २२ डालेंगे। मैं उन से मुंह फेर लूंगा सो वे मेरे रक्षित  
 स्थान को अपवित्र करेंगे और डाकू उस में घुसकर उसे  
 २३ अपवित्र करेंगे। एक सांकल बना दे क्योंकि देश अन्याय  
 २४ के ग्यून से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। सो  
 मैं अन्यजातियों के बुरे से बुरे लोग लाऊंगा जो उन के  
 घरों के स्वामी हो जाएंगे और मैं सामर्थियों का गर्व  
 तोड़ दूंगा और उन के पवित्र स्थान अपवित्र किये  
 २५ जाएंगे। सत्यानाश होने पर है उन्हें हूँदने पर भी शान्ति  
 २६ न मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और चर्चा के  
 पीछे चर्चा सुनाई पड़ेगी और लोग नबी से दर्शन की  
 बात पूछेंगे पर याजक के पास से व्यवस्था और पुरनिये  
 के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी।  
 २७ राजा तो शोक करेगा और रईम उदासीरूपी बख  
 पहिनेंगे और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे मैं  
 उन के चलन के अनुसार उन से बर्ताव करूंगा और  
 उन की कमाई के समान उन को दण्ड दूंगा तब वे  
 जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

(१) मूल में जल [बनकर बह] जाएंगे।

## ८. फिर छठवें बरस के छठवें महीने के पांचवें दिन को मैं अपने घर

में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे साम्हने बैठे  
 थे कि प्रभु यहोवा की शक्ति<sup>२</sup> वहीं मुझ पर हुई। तब २  
 मैं ने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता  
 है उस की कमर से नीचे की ओर आग है और उस की  
 कमर से ऊपर की ओर भलकाए हुए पीतल की  
 भलक सी कुछ है। उस ने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे ३  
 सिर के बाल पकड़े तब आत्मा ने मुझे पृथिवी और  
 आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाये हुए  
 दर्शनों में यरूशलेम के मन्दिर के भीतर आंगन  
 के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिस का मुंह  
 उत्तर ओर है और जिस में उस जलन उपजानेहारी  
 प्रतिमा का स्थान था जिस के कारण जलन होती है।  
 फिर वहां इस्राएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था ४  
 जैसा मैं ने मैदान में देखा था। उस ने मुझ से कहा ५  
 हे मनुष्य के सन्तान अपनी आंखें उत्तर ओर उठाकर  
 देख सो मैं ने अपनी आंखें उत्तर ओर उठाकर देखा  
 कि वेदी के फाटक की उत्तर ओर उस के पैदाव ही में ६  
 वह जलन उपजानेहारी प्रतिमा है। तब उस ने मुझ से  
 कहा हे मनुष्य के सन्तान क्या तू देखता है कि ये लोग  
 क्या कर रहे हैं इस्राएल का घराना क्या ही बड़े धिनौने  
 काम यहां करता है जिस मे मैं अपने पवित्रस्थान से  
 दूर हो जाऊं फिर तुझे इन से भी अधिक धिनौने काम  
 देखने को हैं। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले ७  
 गया और मैं ने देखा कि भीत में एक छेद है।  
 तब उस ने मुझ से कहा हे मनुष्य के सन्तान भीत ८  
 को फोड़ सो मैं ने भीत को फाड़कर क्या देखा कि  
 एक द्वार है। उस ने मुझ से कहा भीतर जाकर देख ९  
 कि ये लोग यहां कैसे कैसे अति धिनौने काम कर रहे  
 हैं। सो मैं ने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की १०  
 भीत पर जाति जाति के रेंगनेहारे जन्तुओं और धिनौने  
 पशुओं और इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के चित्र  
 खिंचे हुए हैं। और इस्राएल के घराने के पुरनियों में से ११  
 सत्तर पुरुष जिन के बीच शापान का पुत्र याजन्याह भी  
 है सो उन चित्रों के साम्हने खड़े हैं और एक एक पुरुष  
 अपने हाथ में धूपदान लिये हुए है और धूप के धूप के १२  
 बादल की सुगन्ध उठ रही है। तब उस ने मुझ से  
 कहा हे मनुष्य के सन्तान क्या तू ने देखा है कि इस्रा-  
 एल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्शाशीवाती

(२) मूल में का हाथ।



कोठरियों के अन्वेषे में क्या कर रहे हैं वे कहते हैं कि यहोवा हम को नहीं देखता यहोवा ने देश को त्याग दिया है । फिर उस ने मुझ से कहा तुम्हें इन से और भी बड़े बड़े धिनौने काम जो वे करते हैं देखने को हैं । तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर और था और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिये रो रही थीं । तब उस ने मुझ से कहा हे मनुष्य के सन्तान क्या तू ने यह देखा है फिर इन से भी बड़े धिनौने काम तुम्हें देखने को हैं । सो वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया और वहां यहोवा के मन्दिर के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई पच्चीस पुरुष अपनी पीठ यहोवा के मन्दिर की ओर और अपने मुख पूरब और किये हुए थे और वे पूरब दिशा की ओर सूर्य को दरडवत् कर रहे थे । तब उस ने मुझ से कहा हे मनुष्य के सन्तान क्या तू ने यह देखा है क्या यहूदा के घराने का ये धिनौने काम करना जो वे यहां करते हैं हलकी बात है उन्होंने ने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहां आकर मुझे रिस दिलाते हैं बरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिये रहते हैं । सो मैं आप जल-जलाहट के साथ काम करूंगा मेरी दयादृष्टि न होगी न मैं कामलता करूंगा और चाहें वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारें तौभी मैं उन की न सुनूंगा ॥

९. फिर उस ने मेरे सुनते ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिये हुए निकट लाओ । इस पर छः पुरुष उत्तर और के ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिये हुये आये और उन के बीच सन का वस्त्र पहिने कमर में दवात बांधे हुये एक और पुरुष था । और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए । इस्राएल के परमेश्वर का तेज तो करुबों पर से जिन के ऊपर वह रहा करता था भवन की डेवड़ी पर उठ आया था और उस ने उस सन का वस्त्र पहिने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा । और यहोवा ने उस से कहा इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सारे धिनौने कामों के कारण जो उस में किये जाते हैं साँसे भरते और

दुःख के मारे चिल्लाते हैं उन के माथों पर चिन्ह कर दे । तब दूसरों से उस ने मेरे सुनते कहा नगर में उस के पीछे पीछे चलकर मारते जाओ किसी पर दया-दृष्टि न करना न कामलता से काम करना । बूढ़े जबान कुंवारी बालबच्चे स्त्रियां सब को मारकर नाश करना जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उस के निकट न जाना और मेरे पवित्रस्थान ही से आरम्भ करो । सो उन्होंने ने उन पुरनियों से आरम्भ किया जो भवन के साम्हने थे । फिर उस ने उन से कहा भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को लोथों से भर दो निकल जाओ । सो वे निकलकर नगर में मारने लगे । जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया तब मैं ने मुँह के बल गिर चिल्लाकर कहा हाय प्रभु यहोवा क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इस्राएल के सारे बच्चे हुआँ को भी नाश करेगा । उस ने मुझ से कहा इस्राएल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यन्त ही बड़ा है यहां तक कि देश तो खून से और नगर अन्याय से भर गया है और वे कहते हैं कि यहोवा ने पृथिवी को त्यागा और यहोवा कुछ नहीं देखता । सो मेरी दयादृष्टि न होगी न मैं कामलता करूंगा बरन उन की चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा । तब मैं ने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए और कमर में दवात बांधे था उस ने यह कहकर समाचार दिया कि जैसे तू ने आशा दी वैसे ही मैं ने किया है ॥

१०. इस के पीछे मैं ने देखा कि करुबों के सिरों के ऊपर जो आकाश-मण्डल है उस में नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है । तब यहोवा ने उस सन का वस्त्र पहिने हुए पुरुष से कहा घूमनेहारे पहियों के बीच करुबों के नीचे जा अपनी दोनों मुट्टियों को करुबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर छितरा दे । सो वह मेरे देखते उन के बीच में गया । जब वह पुरुष करुबों के बीच में गया तब तो वे भवन की दक्खिन ओर खड़े थे और बादल भीतरी आंगन में भरा हुआ था । पर पीछे यहोवा का तेज करुबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर

(१) मूल में उयडेलते उयडेलते ।

(२) वा इस देश ।

५ गया । और करुवों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था वह सर्वशक्तिमान् ईश्वर के बोलने का सा शब्द था । जब उस ने सन का वस्त्र पहिने हुए पुरुष को घूमनेहारे पहियों के बीच से करुवों के बीच से आग लेने की आज्ञा दी तब वह उन के बीच में जाकर एक ७ पहिये के पास खड़ा हुआ । तब करुवों के बीच से एक करुव ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में डाल दिया जो करुवों के बीच में थी और कुछ उठाकर सन का वस्त्र पहिने हुए की मुट्टी में दी और वह उसे लेकर बाहर गया । ८ करुवों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ ९ दिखाई देता था । तब मैं ने देखा कि करुवों के पास चार पहिये हैं अर्थात् एक एक करुव के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फीरोजा का सा है । १० और उन का ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं अर्थात् जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो । ११ चलने के समय वे अपनी चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं बरन जिधर उन का सिर रहता है उधर ही वे उस के पीछे चलते हैं १२ चलते समय वे मुड़ते नहीं । और पीठ हाथ और पंखों समेत करुवों का सारा शरीर और जो पहिये उन के हैं सो भी सब के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं । १३ पहिये मेरे सुनते यह कहलाये अर्थात् घूमनेहारे पहिये । १४ और एक एक के चार चार मुख थे एक मुख तो करुव का सा दूसरा मनुष्य का सा तीसरा सिंह का सा और १५ चौथा उकाब पत्नी का सा था । करुव तो भूमि पर से उठ गये वे तो वे ही जीवधारी हैं जो मैं ने कबार नदी १६ के पास देखे थे । और जब जब वे करुव चलते तब तब पहिये उन के पास पास चलते हैं और जब जब करुव पृथिवी पर से उठने के लिये अपने पंख उठाते १७ तब तब पहिये उन के पास से नहीं मुड़ते । जब वे खड़े होते तब वे भी खड़े होते हैं और जब वे उठते तब वे भी उन के संग उठते हैं क्योंकि जीवधारियों का आत्मा १८ इन में भी रहता है । यहोवा का तेज तों भवन की १९ छेवड़ी पर से उठकर करुवों के ऊपर ठहर गया । और करुव अपने पंख उठा मेरे देखते पृथिवी पर से उठकर निकल गये और पहिये भी उन के संग गये और वे सब यहोवा के भवन के पूरबी फाटक में खड़े हो गये और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उन के ऊपर ठहरा रहा । २० वे वे ही जीवधारी हैं जो मैं ने कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे और मैं ने जान २१ लिया कि वे भी करुव हैं । एक एक के चार मुख और चार पंख और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी हैं ।

और उन के मुखों का रूप वही है जो मैं ने कबार २२ नदी के तीर पर देखा और उन के मुख का क्या बरन उन की सारी देह भी वैसी ही है वे सीधे अपने ही अपने साम्हने चलते हैं ॥

## ११. तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूरबी फाटक के

पास जिस का मुंह पूरब दिशा की ओर है पहुंचा दिया और वहां मैं ने क्या देखा कि फाटक ही में पचीस पुरुष हैं और मैं ने उन के बीच अज्जर के पुत्र याज-न्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह को देखा जो प्रजा के हाकिम थे । तब उस ने मुझ से कहा हे २ मनुष्य के सन्तान जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं सो ये ही हैं । ये तो ३ कहते हैं घर बनाने का समय निकट नहीं यह नगर हंडा और हम उस में का मांस हैं । इसलिये हे मनुष्य ४ के सन्तान इन के विरुद्ध नबूवत कर नबूवत । तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझ से कहा ऐसा कह कि यहोवा यों कहता है कि हे इस्राएल के ५ घराने तुमने ऐसा ही कहा है । जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं । तुम ने तो इस नगर ६ में बहुतों को मार डाला बरन उस की सड़कों को लोथों से भर दिया है । इस कारण प्रभु यहोवा यों ७ कहता है कि जो मनुष्य तुम ने इस में पार डाले हैं उन की लोथें ही इस नगररूपी हंडे में का मांस हैं और तुम इस के बीच से निकाले जाओगे । तुम तलवार ८ से डरते हो और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है । मैं तुम को इस में से ९ निकालकर परदेशियों के हाथ कर दूंगा और तुम को दण्ड दिलाऊंगा । तुम तलवार से मरकर गिरोगे और १० मैं तुम्हारा मुकद्दमा इस्राएल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं । न तो ११ यह नगर तुम्हारे लिये हंडा और न तुम इस में का मांस होगे मैं तुम्हारा मुकद्दमा इस्राएल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा । तब तुम जान लोगे कि मैं १२ यहोवा हूं तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे नियमों का तुम ने नहीं माना पर अपने चारों ओर की अन्यायताओं की रीतियों पर चले हो । मैं इसी १३ प्रकार की नबूवत कर रहा था कि बनायाह का पुत्र पलत्याह मर गया । तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा हाय प्रभु यहोवा क्या तू इस्राएल के बच्चे हुआओं को नाश ही नाश करता है ॥

१४ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि,  
 १५ हे मनुष्य के सन्तान यरूशलेम के निवासियों ने तेरे  
 निकट भाइयों से<sup>१</sup> बरन इस्राएल के सारे घराने से भी  
 कहा है तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ यह देश  
 १६ हमारा ही अधिकार में दिया गया है। पर तू उन से कह  
 प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं न तुम को दूर दूर की  
 जातियों में बसाया और देश देश में तित्तर बित्तर कर दिया  
 तां है तौभी जिन देशों में तुम आये हुए हो उन में मैं  
 तुम्हारे लिये थोड़े दिन लों आप पवित्रस्थान ठहरा  
 १७ रहूँगा। फिर उन से कह कि प्रभु यहोवा यों कहता है  
 कि मैं तुम को जाति जाति के लोगों के बीच से बटो-  
 रूँगा और जिन देशों में तुम तित्तर बित्तर किये गये हो  
 उन में से तुम को इकट्ठा करूँगा और तुम्हें एसाएल  
 १८ की भूमि दूँगा। और वे वहाँ पहुँचकर उस देश की सब  
 धिनौनी मूरतें और सब धिनौने काम भी उस में से दूर  
 १९ करेंगे। और मैं उन का एक ही मन कर दूँगा और  
 तुम्हारे भीतर नया आत्मा उपजाऊँगा और उन की देह  
 में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का  
 २० हृदय दूँगा, जिस से वे मेरी विधियों पर चलें और मेरे  
 नियमों को मानें और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उन  
 २१ का परमेश्वर ठहरूँगा। पर वे लोग जो अपनी धिनौनी  
 मूरतों और धिनौने कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं  
 मैं ऐसा करूँगा कि उन की चाल उन्हीं के सिर पर  
 २२ पड़ेगी प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इस पर  
 करूवों ने अपने पंख उठाये और पहिये उन के संग रहे  
 और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उन के ऊपर था।  
 २३ तब यहोवा का तेज नगर के बीच पर से उठकर उस  
 २४ पर्वत पर ठहर गया जो नगर की पूरब ओर है। फिर  
 आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की  
 शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बन्धुओं के  
 पास पहुँचा दिया। और जो दर्शन मैं ने पाया था सो  
 २५ लोप हो गया। तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे  
 दिखाई थीं सो मैं ने बन्धुओं को बता दीं ॥

२ **१२. फिर** यहोवा का यह वचन मेरे पास  
 पहुँचा कि, हे मनुष्य के  
 सन्तान तू तो बलवा करनेहारें घराने के बीच रहता  
 है जिन के देखने के लिये आंख तां हैं पर नहीं देखते  
 और सुनने के लिये कान तो हैं पर नहीं सुनते क्योंकि  
 ३ वे बलवा करनेहारें घराने के हैं। सो हे मनुष्य के सन्तान

(१) मूल में तेरे भाइयों तेरे भाइयों तेरे समीपियों में ।

(२) मूल में मुझ पर से उठ गया ।

बन्धुआई का सामान तैयार करके दिन को उन के देखते  
 उठ जाना अपना स्थान छोड़कर उन के देखते दूसरे  
 स्थान को जाना यद्यपि वे बलवा करनेहारें घराने के हैं  
 तौ भी क्या जानिये वं ध्यान दें। सो तू दिन को उन के  
 देखते बन्धुआई के सामान की नाई अपना सामान  
 निकालना और तू आप बन्धुआई में जानेहारें की रीति  
 सांभ को उन के देखते उठ जाना। उन के देखते भीत  
 को फोड़कर उसी में से अपना सामान निकालना। उन  
 के देखते उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निका-  
 लना और अपना मुख ढांपे रहना कि भूमि तुझे न  
 देख पड़े क्योंकि मैं ने तुम्हें इस्राएल के घराने के लिये  
 चिन्ह ठहराया है। आशा के अनुसार मैं ने ऐसा ही  
 किया दिन को मैं ने अपना सामान बन्धुआई के  
 सामान की नाई निकाला और सांभ को अपने हाथ से  
 भीत को फोड़ा फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उन  
 के देखते अपने कंधे पर उठाये हुये चला गया। फिर  
 विहान को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि,  
 हे मनुष्य के सन्तान क्या इस्राएल के घराने ने अर्थात्  
 उस बलवा करनेहारें घराने ने तुझ से यह नहीं पूछा कि  
 यह तू क्या करता है। तू उन से कह कि प्रभु यहोवा यों  
 कहता है कि यह भारी वचन यरूशलेम में के प्रधान  
 पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के विषय है जिस  
 के बीच वे रहते हैं। तू उन से कह कि मैं तुम्हारे लिये  
 चिन्ह हूँ जैसा मैं ने आप किया है वैसा ही इस्राएली लोगों  
 से भी किया जाएगा उन को उठकर बन्धुआई में जाना  
 पड़ेगा। उन के बीच जो प्रधान पुरुष है सो अंधेरे में  
 अपने कंधे पर बोझ उठाये हुए निकलेगा वे अपना सामान  
 निकालने के लिये भीत को फोड़ेंगे और वह प्रधान  
 अपना मुख ढांपे रहेगा कि उस को भूमि न देख पड़े।  
 फिर मैं उस पर अपना जाल फैलाऊँगा और वह मेरे  
 फदे में फसेगा और मैं उसे कसदियों के देश के बाबेल  
 में पहुँचा दूँगा पर यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा  
 तौभी उस को न देखेगा। और जितने उस के आस  
 पास उस के सहायक होंगे उन का और उस की सारी  
 टोलियों का मैं सब दिशाओं में तित्तर बित्तर कर दूँगा  
 और तलवार खींचकर उन के पीछे चलवाऊँगा। और  
 जब मैं उन्हें जाति जाति में तित्तर बित्तर कर दूँगा और  
 देश देश में छिन्न भिन्न कर दूँगा तब वे जान लेंगे कि  
 मैं यहोवा हूँ। और मैं उन में से थोड़े से लोगों को  
 तलवार भूख और मरी से बचा रखूँगा और वे अपने  
 धिनौने काम उन जातियों में बखान करेंगे जिन के बीच  
 वे पहुँचेंगे तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

१७ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा  
 १८ कि, हे मनुष्य के सन्तान कांपते हुए अपनी रोटी खाना  
 और थरथरते और चिन्ता करते हुए अपना पानी  
 १९ पीना । और इस देश के लोगों से यों कहना कि प्रभु  
 यहोवा यरूशलेम और इस्राएल के देश के निवासियों  
 के विषय यों कहता है कि वे अपनी रोटी चिन्ता के  
 साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पीएंगे  
 और देश के सब रहनेहारों के उपद्रव के कारण उस सब  
 २० से जो उस में है वह रहित हांकर उजड़ जाएगा । और  
 बसे हुए नगर उजड़ेंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा  
 तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

२१ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि,  
 २२ हे मनुष्य के सन्तान यह क्या कहावत है जो तुम लोग  
 इस्राएल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो  
 २३ गये हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई । इस-  
 लिये उन से कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं इस  
 कहावत को बन्द करूंगा और यह कहावत इस्राएल पर  
 फिर न चलेगी तू उन से कह कि वह दिन निकट आया  
 २४ और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हैं । और इस्राएल  
 के घराने में न तो झूठे दर्शन की कोई बात और न भावी  
 २५ की कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी । क्योंकि  
 मैं यहोवा हूँ जब मैं बोलू तब जो वचन मैं कहूँ सो  
 पूरा हो जाएगा उस में विलम्ब न होगा हे बलवा करने-  
 हारे घराने तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह  
 पूरा हो जाएगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

२६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा  
 २७ कि, हे मनुष्य के सन्तान सुन इस्राएल के घराने के  
 लोग यह कह रहे हैं कि जो दर्शन वह देखता है सो  
 बहुत दिन के पीछे पूरा होनेवाला है और वह दूर के  
 २८ समय के विषय नबूवत करता है । इसलिये तू उन से  
 कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि मेरे किसी वचन के पूरे  
 होने में फिर विलम्ब न होगा वरन जो वचन मैं कहूँ सो  
 पूरा ही होगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

१३. फिर यहोवा का यह वचन मेरे  
 पास पहुंचा कि, हे मनुष्य  
 के सन्तान इस्राएल के जो नबी अपने ही मन से नबूवत  
 करते हैं उन के विरुद्ध तू नबूवत करके कह कि यहोवा  
 ३ का वचन सुनो । प्रभु यहोवा यों कहता है कि हाथ उन  
 मूढ़ नबियों पर जो अपने ही आत्मा के पीछे भटक जाते  
 ४ और दर्शन नहीं पाया । हे इस्राएल तेरे नबी खण्डहरों

(१) मूल में सब दर्शन नाश हुए ।

में की लामड़ियों के समान बने हैं । तुम ने नाकों में ५  
 चढ़कर इस्राएल के घराने के लिये भीत नहीं सुधारी जिस  
 से वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकें । जा लोग ६  
 कहते हैं कि यहोवा की यह वाणी है उन्होंने ने भावी का  
 व्यर्थ और झूठा दावा किया है क्योंकि चाहे तुम ने  
 यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा  
 तौभी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा । क्या तुम्हारा दर्शन ७  
 झूठा नहीं है और क्या तुम झूठमूठ भावी नहीं कहते कि  
 तुम कहते हो कि यहोवा की यह वाणी है पर मैं ने  
 कुछ नहीं कहा है । इस कारण प्रभु यहोवा तुम से यों ८  
 कहता है कि तुम ने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन  
 देखे हैं इस लिये मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ प्रभु यहोवा की  
 यही वाणी है ॥

जो नबी झूठे दर्शन देखते और झूठमूठ भावी ९  
 कहते हैं मेरा हाथ उन के विरुद्ध होगा और न वे मेरी  
 प्रजा की गोष्ठी में भागी होंगे न उन के नाम इस्राएल  
 की नामावली में लिखे जाएंगे और न वे इस्राएल के  
 देश में प्रवेश करने पाएंगे इस से तुम लोग जान लोगे  
 कि मैं प्रभु यहोवा हूँ । क्योंकि उन्होंने ने शान्ति ऐसा १०  
 कहकर जब शान्ति नहीं है मेरी प्रजा को बहकाया है  
 फिर जब कोई भीत बनाता तब वे उस की कच्ची लेसाई  
 करते हैं । उन कच्ची लेसाई करनेहारों से कह कि वह ११  
 तां गिर जाएगी क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और  
 बड़े बड़े आँले भी गिरेंगे और प्रचण्ड आंधी उसे गिरा-  
 एगी । सो जब भीत गिर जाएगी तब क्या लोग तुम १२  
 से यह न कहेंगे कि जो लेसाई तुम ने की सो कहा  
 रही । इस कारण प्रभु यहोवा तुम से यों कहता है कि १३  
 मैं जलकर उस को प्रचण्ड आंधी के द्वारा गिराऊंगा  
 और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी और मेरी जलजलाहट  
 से बड़े बड़े आँले गिरेंगे कि भीत को नाश करे । इस १४  
 गीत जिस भीत पर तुम ने कच्ची लेसाई की है उस में  
 दा टूंगा वरन मिट्टी में मिलाऊंगा और उस की सब खुल  
 जाएगी और जब वह गिरेगी तब तुम भी उस के  
 नीचे दबकर नाश होंगे तब तुम जान लोगे कि मैं  
 यहोवा हूँ । इस रीति में भीत और उस की कच्ची १५  
 लेसाई करनेहारों दोनों पर अपनी जलजलाहट पूरा रीति  
 में भडकाऊंगा फिर तुम से कहूंगा कि न तो भीत रही  
 और न उस के लेसनहारों रहे, अर्थात् इस्राएल के वे १६  
 नबी जो यरूशलेम के विषय नबूवत करते और उन की  
 शान्ति का दर्शन बताते हैं पर प्रभु यहोवा की यह वाणी  
 है कि शान्ति है ही नहीं ॥

(२) मूल में क्योंकि और क्योंकि

- १७ फिर हे मनुष्य के सन्तान तू अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से नबूवत करती हैं उन के विरुद्ध नबूवत करके कह, कि प्रभु यहोवा यों कहता है कि जो स्त्रियां हाथ के सब जोड़ों के लिये तकिया सीती और प्राणियों का अहंर करने को डील डील के मनुष्यों के सिर के टांपने के लिये कपड़े बनाती हैं उन पर हाथ । क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का अहंर करके अपने निज प्राण बचा रक्खोगी ।
- १९ तुम ने तो मुट्टी मुट्टी भर जब और रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर अपनी उन भूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुम से सुनते हैं उन प्राणियों को मार डाला जो नाश के योग्य न थे और उन प्राणियों को बचा रक्खा है जो बचने के योग्य न थे । इस कारण प्रभु यहोवा तुम से यों कहता है कि सुनो मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूँ जिन के द्वारा तुम वहां प्राणियों को अहंर करके उड़ाती हो सो उन को तुम्हारी बांह पर से छीनकर उन प्राणियों को छुड़ा दूंगा जिन्हें तुम अहंर कर करके उड़ाती हो ।
- २१ फिर मैं तुम्हारे सिर के कपड़े फाड़कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा और वे आगे को तुम्हारे वश में न रहेंगे कि तुम उन का अहंर कर
- २२ सको तब तुम जान लोगी कि मैं यहांवा हूँ । तुम ने जो भूठ कह कर धर्मी के मन को उदास किया है जिस को मैं ने उदास करना नहीं चाहा और दुष्ट जन को दियाव बंधाया है जिस से यह अपने बुरे मार्ग से
- २३ न फिरे और जीता रहे, इस कारण तुम फिर न तो भूठा दर्शन देखोगी और न भावी कहांगी क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा तब तुम जान लोगी कि मैं यहांवा हूँ ॥

**१४. फिर** इस्राएल के कितने पुरनिये मेरे पास आकर मेरे साम्हने बैठ

- २ गये । तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के सन्तान इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित कीं और अपने अधर्म की ठोकर अपने साम्हने रक्खी है फिर क्या वे मुझ से कुछ भी पूछने पाएँ । सो तू उन से कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने साम्हने रक्खकर नबी के पास आए उस को मैं यहोवा उस की बहुत सी मूरतों के अनुसार ही

(१) मूल में बेटियों ।

उत्तर दूंगा, जिस से इस्राएल का घराना जो अपनी मूरतों के द्वारा मुझे त्यागकर सब का सब दूर हो गया है उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊँ । सो इस्राएल के घराने से कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि फिरो और अपनी मूरतों को पीठ पीछे करो और अपने सब धिनौने कामों से मुंह मोड़ो । क्योंकि इस्राएल के घराने में से और उस के बीच रहनेहारे परदेशियों में से भी कोई क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने साम्हने रक्खे और तब मुझ से अपनी कोई बात पूछने के लिये नबी के पास आए उस को मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा । और मैं उस मनुष्य से विमुख हूँकर उस को विस्मित करूंगा और चिह्न ठहराऊंगा उस की कहावत चलाऊंगा और मैं उसे अपनी प्रजा में से नाश करूंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ । और यदि नबी ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो तो जानो कि मुझ यहांवा ने उस नबी का धोखा दिया है और अपना हाथ उस के विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से विनाश करूंगा । वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे अर्थात् जैसा नबी से पूछनेहारे का अधर्म ठहरंगा नबी का भी अधर्म वैसा ही ठहरंगा, इसलिये कि इस्राएल का घराना मेरे पीछे हो लेना आगे को न छोड़ें न अपने भांत भांत के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने बरन वे मेरी प्रजा ठहरें और मैं उन का परमेश्वर ठहरूँ प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

फिर यहांवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के सन्तान जब किसी देश के लोग मुझ से विश्वासघात करके पापी हो जाएँ और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उस में का अन्नरूपी आधार दूर करूँ और उस में अकाल डालकर उस में से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूँ, तब चाहें उस में नूह दानियेल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तौभी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों का बचा सकेंगे प्रभु यहोवा की यही वाणी है । यदि मैं किसी देश में दुष्ट जन्तु भेजूं जो उस को निर्जन करके उजाड़ कर डालें और जन्तुओं के कारण कोई उस में होकर न जाएँ, तो चाहे उस में वे तीन पुरुष हों तौभी प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सोह वे न तो बेटों न बेटियों का बचा सकेंगे वे ही अकेले बचेंगे और देश उजाड़ हो जाएगा । यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं हे तलवार उस देश में चल और

इस रीति मनुष्य और पशु उस में से नाश करूं,  
 १८ तो चाहे उस में वे तीन पुरुष हों तौभी प्रभु यहोवा की  
 यह वाणी है कि मेरे जीवन की सोह वे न तो बेटों न  
 १९ बेटियों को बचा सकेंगे वे ही अकेले बचेंगे । यदि मैं उस  
 देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट  
 भड़काकर उस में का लोहू ऐसा बहाऊं कि वहां के  
 २० मनुष्य और पशु दोनों नाश हों । तो चाहे नूह  
 दानिय्येल और अय्यूब उस में हों तौभी प्रभु यहोवा  
 की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सोह वे न तो  
 बेटों न बेटियों को बचा सकेंगे वे अपने धर्म के द्वारा  
 २१ अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे । और प्रभु यहोवा यों  
 कहता है कि मैं यरूशलेम पर अपने चारों दण्ड पहुंचाऊंगा  
 अर्थात् तलवार अकाल दुष्ट जन्तु और मरी  
 २२ जिन से मनुष्य और पशु सब उस में से नाश हों । तौभी  
 उस में थोड़े से बेटे बेटियां बचेंगी वहां से निकालकर  
 तुम्हारे पास पहुंचाई जाएंगी और तुम उन के चाल  
 चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय जो  
 मैं यरूशलेम पर डालूंगा बरन जितनी विपत्ति मैं उस  
 २३ पर डालूंगा उस सब के विषय तुम शांत पाओगे । जब  
 तुम उन का चाल चलन और काम देखो तब तुम्हारी  
 शान्ति के कारण होंगे और तुम जान लोगे कि मैं ने  
 यरूशलेम में जो कुछ किया सो बिना कारण नहीं किया  
 प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

२ **१५. फिर** यहोवा का यह वचन मेरे पास  
 पहुंचा कि, हे मनुष्य के  
 सन्तान सब वृक्षों में दाखलता की क्या श्रेष्ठता है दाख  
 की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है  
 ३ उस में क्या गुण है । क्या कोई वस्तु बनाने के लिये उस  
 में से लकड़ी ली जाती वा कोई बर्तन टांगने के लिये  
 ४ उस में से खूटी बन सकती है । वह तो ईन्धन बनकर  
 आग में भोंकी जाती है उस के दोनों सिरे आग से जल  
 जाते और उस का बीच भस्म हो जाता है क्या वह  
 ५ किसी काम की है । सुन जब वह बनी थी तब वह भी  
 किसी काम की न थी फिर जब वह आग का ईन्धन  
 ६ होकर भस्म हो गई है तब किसी काम की कहाँ रही । सो  
 प्रभु यहोवा यों कहता है कि जैसे जंगल के पेड़ों में से  
 मैं दाखलता को आग का ईन्धन कर देता हूँ वैसे ही  
 ७ मैं यरूशलेम के निवासियों को नाश कर देता हूँ । और  
 मैं उन से विमुख हूंगा और वे आग में से निकलकर  
 फिर दूसरी आग का ईन्धन हो जाएंगे और जब मैं उन

(१) मूल में उलटलकर ।

से विमुख हूंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा  
 हूँ । और मैं उन का देश उजाड़ दूंगा क्योंकि  
 उन्होंने ने मुझ से विश्वासघात किया है प्रभु यहोवा की  
 यही वाणी है ॥

**१६. फिर** यहोवा का यह वचन मेरे पास  
 पहुंचा कि, हे मनुष्य के संतान २  
 यरूशलेम को उस के सब धिनौने काम जता दे । और ३  
 उस से कह हे यरूशलेम प्रभु यहोवा तुझ से यों कहता  
 है कि तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से  
 हुई तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी ।  
 और तेरे जन्म पर ऐसा हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस ४  
 दिन न तेरा नाल छीना गया न तू शुद्ध होने के लिये  
 धोई गई न तेरे कुछ भी लोन मला गया न तू कुछ भी ५  
 कपड़ों में लपेटाई गई । किसी की दयार्थि तुझ पर न  
 हुई कि इन कामों में से तेरे लिये एक भी काम किया  
 जाता बरन अपने जन्म के दिन तू धिनौनी होने के  
 कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी । और जब ६  
 मैं तेरे पास से हांकर निकला और तुझे लोहू में लोटते  
 हुए देखा तब मैं ने तुझ से कहा हे लोहू में लोटती हुई  
 जीती रह फिर तुझ से मैं ने कहा लोहू में लोटती हुई ७  
 जीती रह । फिर मैं ने तुझे खेत के बिरले की नाई  
 बढ़ाया सो तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुन्दर  
 हो गई तेरी छातियां सुडौल हुईं और तेरे बाल बड़े  
 और तू नंग धड़ंग थी । फिर मैं ने तेरे पास से होकर ८  
 जाते हुए तुझे देखा कि तू पूरी ली हो गई है सो मैं ने  
 तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया और  
 तुझ से किरिया खाकर तेरे संग वाचा बांधी और तू मेरी ९  
 हो गई प्रभु यहोवा की यही वाणी है । तब मैं ने तुझे  
 जल से नहलाकर तेरा लोहू तुझ पर से धो दिया और  
 तेरी देह पर तेल मला । फिर मैं ने तुझे बूटेदार वस्त्र १०  
 और सूइसों के चमड़े की पहनियां पहनाई और तेरी  
 कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा  
 ओढ़ाया । तब मैं ने तेरा सिंगार किया और तेरे हाथों ११  
 में चूड़ियां और तेरे गले में तोड़ा पहिनाया । फिर मैं ने १२  
 तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहिनाई  
 और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा । सो तेरे १३  
 आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम  
 और बूटेदार कपड़े के बने फिर तेरा भोजन मैदा मधु  
 और तेल हुआ । और तू अत्यन्त सुन्दर बरन रानी  
 होने के योग्य हो गई । और तेरी सुन्दरता की कीर्ति १४  
 अन्यजातियों में फैल गई क्योंकि उस प्रताप के कारण

जो मैं ने अपनी आंर से तुम्हे दिया था तू पूर्ण सुन्दर थी प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

- १५ तब तू अपनी सुन्दरता का भरासा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब बटो-हियों के संग बहुत कुकर्म किया जो कोई तुम्हे चाहता १६ उसी मे तू मिलती थी । और तू ने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिये और उन पर व्यभिचार १७ किया ऐसा काम फिर न बन पड़ेगे, ऐसा नहीं होने का । और तू ने अपने सुशोभित गहने लेकर जां मेरे दिये हुए सोने चान्दी के थं पुरुष की मूर्तों बना लीं और १८ उन से भी व्यभिचार करने लगी, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उन को पहिनाये और मेरा तेल और मेरा धूप उन १९ के साम्हने चढ़ाया । और जो भोजन मैं ने तुम्हे दिया था अर्थात् जो मैदा तेल और मधु मैं तुम्हे खिलाता था सो सब तू ने उन के साम्हने सुखदायक सुगन्ध करके रक्खा २० यों ही होता था प्रभु यहोवा की यही वाणी है । फिर तू ने अपने बेटे बेटियां जां तू मेरी जन्माईं जनी थी लेकर उन मूर्तों का नैवेद्य करके चढ़ाईं । क्या तेरा २१ व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी, कि तू ने मेरे लड़केवाले २२ उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किये हैं । और तू ने अपने सब धिनौने काम में और व्याभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की सुधि कभी न ली जब २३ तू नंग धड़ंग अपने लांहू में लोटती थी । और तेरी उस सारी बुराईं के पीछे क्या हुआ प्रभु यहोवा की यह २४ वाणी है कि हाय तुम्ह पर हाय, कि तू ने एक डाट-वाला घर बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा २५ स्थान बनवा लिया । और एक एक सड़क के सिरे पर भी तू ने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुन्दरता धिनौनी कर दी और एक एक बटोही को कुकर्म के २६ लिये बुलाकर महाव्यभिचारिन हो गईं । तू ने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी जो मोटे ताजे हैं व्यभिचार किया तू मुझे रिस दिलाने के लिये अपना व्यभिचार २७ बढ़ाती गईं । इस कारण मैं ने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा दिन दिन का खाना घटा दिया और तेरी बैरिन पतिश्रुती स्त्रियां जो तेरी महापाप की चाल से लजाती हैं उन की इच्छा पर मैं ने तुम्हे छोड़ दिया है । २८ फिर तेरी तृष्णा जो न बुझी इसलिये तू ने अशशूरी लोगों से भी व्यभिचार किया और उन से व्यभिचार करने पर २९ भी तेरी तृष्णा न बुझी । फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश लों पहुंची और ३० वहां भी तेरी तृष्णा न बुझी । सो प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती

है जो निर्लज्ज वेश्या ही के काम हैं । तू ने जो एक एक सड़क के सिरे पर अपना डाटवाला घर और चौक चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरी क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है । तू व्यभिचारिन पत्नी है तू पराये पुरुषों को अपने पति की सन्ती ग्रहण करती है । सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता है पर तू ने अपने सब यारों को रुपए देकर और उन को लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर मे आकर तुम्ह से व्यभिचार करें । इस प्रकार तेरा व्यभिचार और व्यभिचारिनों से उलटा है तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता और तू दाम किसी से लेती नहीं बरन तू ही देती है इसी रीति तू उलटी ठहरी ॥

इस कारण हे वेश्या यहोवा का वचन सुन । प्रभु यहोवा यो कहता है कि तू ने जो व्यभिचार में अति निर्लज्ज होकर अपनी देह अपने यारों का दिखाई और अपनी मूर्तों से धिनौने काम किये और अपने लड़केवालों का लांहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है, इस कारण सुन मैं तेरे सब यारों को जो तेरे प्यारे हैं और जितनों से तू प्रीति लगाई और जितनों से तू ने बैर रक्खा उन सभी को चारों ओर मे तेरे विरुद्ध इकट्ठा कर उन को तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा और वे तेरा तन देखेंगे । तब मैं तुम्ह को ऐसा दण्ड दूंगा जैसा व्यभिचारिनों और लांहू बहानेहारी स्त्रियों का दिया जाता है और क्रोध और जलन के साथ तेरा लांहू बहाऊंगा । इस रीति मैं तुम्हे उन के वश कर दूंगा और वे तेरे डाटवाले घर को ढा देंगे और तेरे ऊंचे स्थानों को तोड़ देंगे और तेरे वस्त्र बरबस उतारेंगे और तेरे सुन्दर गहने छीन लेंगे और तुम्हे नंग धड़ंग करके छोड़ेंगे । तब वे तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके तुम्ह को पथरवाह करेंगे और अपने कटारों से वारपाव छेदेंगे । तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे और तुम्हे बहुत सी स्त्रियों को देखते दण्ड देंगे और मैं तेरा व्यभिचार बन्द करूंगा और तू छिनाले के लिये दाम फिर न देगी । और जब मैं तुम्ह पर पूरी जलजलाहट प्रगट कर चुकूंगा तब तुम्ह पर और न जलूंगा बरन शान्त हो जाऊंगा और फिर न रिसियाऊंगा । तू ने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रक्खे बरन इन सब बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर डालूंगा और तू अपने सब पिछले धिनौने कामों से अधिक और और महापाप न करेगी प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ सुन कहावतों के सब कहनेहारे तेरे विषय यह कहावत कहेंगे कि जैसी मा वैसी बेटी । तेरी मा जो

अपने पति और लड़केवालों से घिन करती है तू ठीक उस की बेटी ठहरी और तेरी बहिनें जो अपने अपने पति और लड़केवालों से घिन करती थीं तू ठीक उन की बहिन ठहरी उन की भी माता हिसिन और उन का भी पिता

४६ एमोरी था । तेरी बड़ी बहिन तो शोमरोन है जो अपनी बेटियों समेत तेरी बाईं ओर रहती है और तेरी छोटी बहिन जो तेरी दहिनी ओर रहती है सो बेटियों समेत

४७ सदोम है । पर तू उन की सी चाल नहीं चली और न उन के से घिनौने काम किये हैं यह तो बहुत छोटी बात ठहरती पर तेरा सारा चालचलन उन में भी अधिक

४८ बिगड़ गया । प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सोंह तेरी बहिन सदोम ने अपनी बेटियों समेत तेरे

४९ और तेरी बेटियों के समान काम नहीं किये । सुन तेरी बहिन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी बेटियों सहित घमण्ड करती पेट भर भरके खाती और मुख चैन

५० से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी । सो वह गर्व करके मेरे साम्हने घिनौने काम करने लगी और

५१ यह देखकर मैं ने उन्हें दूर कर दिया । फिर शोमरोन ने तेरे पास के आधे भी नहीं किये तू ने तो उस से बढ़कर घिनौने काम किये और अपने सारे घिनौने कामों

५२ के द्वारा अपनी बहिनों को जीत लिया<sup>१</sup> । सो तू ने जो अपनी बहिनों का न्याय किया इस कारण लज्जा करती रह क्योंकि तू ने जो उन से बढ़कर घिनौने पाप किये हैं इस कारण वे तुझ से कम दोषी ठहरी हैं सो तू इस बात से लज्जा और लजाती रह कि तू ने अपनी बहिनों

५३ को जीत लिया है । सो जब मैं उन का अर्थात् बेटियों सहित सदोम और शोमरोन को बन्धुआई से फेर लाऊंगा तब उन के बीच ही तेरे बन्धुओं को भी फेर

५४ लाऊंगा, जिस से तू लजाती रहे और अपने सब कामों से यह देखकर लजाए कि तू उन की शांति ही का कारण

५५ हुई है । और तेरी बहिनें सदोम और शोमरोन अपनी अपनी बेटियों समेत अपनी पहिली दशा को फिर पहुंचेंगी और तू भी अपनी बेटियों सहित अपनी पहिली

५६ दशा को फिर पहुंचेंगी । अपने घमण्ड के दिनों में तो

५७ तू अपनी बहिन सदोम का नाम भी न लेती थी, जब कि तेरी बुराई प्रगट न हुई थी अर्थात् जिस समय तू आसपास के लोगों समेत अरामी स्त्रियों की और पलिशती स्त्रियों की जो अब चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती

५८ हैं नामधराई करती थी । पर अब तुझ को अपने महापाप और घिनौने कामों का मार आप ही उठाना पड़ा

५९ यहोवा की यही वाणी है । प्रभु यहोवा यह कहता है

(१) मूल में निर्दोष ठहराया ।

कि मैं तेरे साथ ऐसा बर्ताव करूंगा जैसा तू ने किया है तू ने तो वाचा तांडुकर किरिया तुच्छ जानी है । तौभी मैं ६० तेरे वचन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा । और जब तू ६१ अपनी बहिनों को अर्थात् अपनी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी बहिनों को ग्रहण करे तब तू अपना चालचलन स्मरण करके लजाएगी और मैं उन्हें तेरी बेटियां ठहरा दूंगा पर यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा । और ६२ मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं, जिस से तू स्मरण करके लजाए ६३ और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले यह तब होगा जब मैं तेरे सब कामों को दांपूंगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

१७. फिर यहोवा का यह वचन मेरे

पास पहुंचा, कि हे मनुष्य के २ संतान इस्राएल के घराने मे यह पहेली और दृष्टान्त कह कि, प्रभु यहोवा यों कहता है कि एक लम्बे पंखे- ३ वाले और परों से भरे और रङ्ग विरङ्गे बड़े उकाव पत्नी ने लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली । तब उस ने उस फुनगी की सब से ऊपर पतली टहनी ४ को तोड़ लिया और उसे लेन देन करनेहारों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया । तब उस ५ ने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजदू की नाई लगाया । और वह उगकर छोटी फैलनेहारी दाखलता ६ हो गई जिस की डालियां उकाव की ओर झुकीं और उस की मोंर उस के नीचे फैलीं इस प्रकार से वह दाखलता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी । फिर और एक लम्बे पंखवाला और परों से भरा ७ हुआ बड़ा उकाव पत्नी था सो क्या हुआ कि वह दाखलता उस कियारी से जहां वह लगाई गई थी उसी दूसरे उकाव की ओर अपनी सोर फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी जिस से वही उसे मांचा करे । पर वह ना इमलिये अच्छी भूमि में बहुत जल के पास ८ लगाई गई थी कि कनखाएं फोड़े और फले और उत्तम दाखलता बने । सो तू यह कह कि प्रभु यहोवा यों ९ पूछता है कि क्या वह फूले फलेगी क्या वह उस को जड़ से न उखाड़ेगा और उस के फलों का न भाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए वह तो बहुत बल बिना किये और बहुत लांगों के बिना आये भी जड़ से उखाड़ी जाएगी । चाहे वह १० लगी भी रहे तौभी क्या वह फूले फलेगी जब पुर्बाई



उस को लगे तब क्या वह बिलकुल सुख न जाएगी वह तो उसी कियारी में सुख जाएगी जहां उगी है ॥

- ११ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि,  
 १२ उस बलवा करनेहारों के घराने से कह कि क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते फिर उन से कह बाबेल के राजा ने यरूशलेम को जा उस के राजा और और हाकिमों को लेकर अपने यहां बाबेल में पहुंचाया ।  
 १३ तब उस राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उस से वाचा बांधी और उस को बश में रहने की किरिया खिलाई और देश के सामर्थी सामर्थी पुरुषों को ले गया, कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके  
 १४ बरन वाचा पालने से स्थिर रहे । तौभी इस ने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र में भेजकर उससे बलवा किया । क्या वह फूले फलेगा क्या ऐसे कामों का करनेहारा बचेगा क्या वह अपनी वाचा  
 १५ तोड़ने पर बच जाएगा । प्रभु यहोवा यों कहता है कि मेरे जीवन की सोह जिस राजा की खिलाई हुई किरिया उस ने तुच्छ जानी और जिस की वाचा उस ने तोड़ी उस के यहां जिस ने उसे राजा किया था अर्थात् बाबेल  
 १६ में वह उस के पास ही मर जाएगा । और जब वे बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिये धुस बांधेंगे और कोट बनाएंगे तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुतों की मण्डली रहते भी युद्ध में उस की सहायता न करेगा । क्योंकि उस ने किरिया को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा देखो उस ने वचन देने पर भी ऐसे  
 १७ ऐसे काम किये हैं सो वह वचन न जाएगा । सो प्रभु यहोवा यों कहता है कि मेरे जीवन की सोह कि उस ने मेरी किरिया तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी यह पाप  
 १८ मैं उसी के सिर पर डालूंगा । और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वह मेरे फन्दे में फंसेगा और मैं उस को बाबेल में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकद्दमा उस से लड़ूंगा जो उस ने मुझ से किया है ।  
 १९ और उस के सब दर्रा में से जितने भागों में मय तलवार से मारे जाएंगे और जो रह जाएंगे सो चारों दिशाओं में तिक्तर बिक्तर हो जाएंगे तब तुम लोग जान लोंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है ॥  
 २० फिर प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उस की सब से ऊपरवाली कनखाओं में से एक कोमल  
 २१ कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर, अर्थात् इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर आप लगाऊंगा सो वह डालियां फोड़ बलवन्त होकर उत्तम देवदार बन जाएगा और उस

के नीचे अर्थात् उस की डालियों की छाया में भांति भांति के सब पत्ती बसेरा करेंगे । तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया फिर हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया मुझ यहोवा ही ने यह कहा और कर भी दिया है ॥

१८. फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, तुम लोग जो इस्राएल

के देश के विषय यह कहावत कहते हो कि जंगली दाख खाते तो पुरखा लोग पर दांत खट्टे होते हैं लड़कें-बालों के इस का क्या मतलब है । प्रभु यहोवा यों कहता कि मेरे जीवन की सोह तुम को इस्राएल में यह कहावत कहने का फिर अबसर न मिलेगा । सुनो सबों के प्राण तो मेरे हैं जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है दोनों मेरे ही हैं सो जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा । जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, और न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो न इस्राएल के घराने की मूरतों की ओर आखें उठाई हों न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो न ऋतुमती के पास गया हो, और न किसी पर अन्धेर किया हो बरन ऋणी को उस का बंधक फेर दिया हो और न किसी को लूटा हो बरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो न रुपए की बढ़ोतरी ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से खींचा हो और मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो ऐसा मनुष्य धर्मी है वह तो निश्चय जीता रहेगा प्रभु यहोवा की यही वारणी है । पर यदि उस का पुत्र डाकू खूनी वा ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करनेहारा हो, और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करनेहारा न हो और पहाड़ों पर भोजन किया हो पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दान दरिद्र पर अन्धेर किया हो औरों को लूटा हो बन्धक न फेर दिया हो मूरतों की ओर आख उठाई हों, धनाना काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ोतरी ली हो तो क्या वह जीता रहेगा वह जीता न रहेगा उस ने ये सब धनौने काम किये हैं इसलिये वह निश्चय मरेगा उस का खून उसी के सिर पड़ेगा । फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर विचारके उन के समान न करता हो, अर्थात् न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो न इस्राएल के घराने की

मूर्तों की ओर आंख उठाई हो न पराई स्त्री को ढिगाड़ा  
 १६ हो, न किसी पर अन्धेर किया हो न कुछ बंधक लिया  
 हो न किसी को लूटा हो बरन अपनी रोटी भूखे को दी  
 १७ हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, दीन जन की हानि  
 करने से हाथ खींचा हो ब्याज और बढ़ोतरी न ली हो  
 और मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला  
 हो तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा  
 १८ जीता ही रहेगा । उस का पिता तो जिस ने अंधेर किया  
 और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम  
 किया है वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा ।  
 १९ तौभी तुम लोग कहते हो क्यों क्या पुत्र पिता के अधर्म  
 का भार नहीं उठाता जब पुत्र ने न्याय और धर्म के  
 काम किये हों और मेरी सब विधियों को पालकर उन पर  
 २० चला हो तो वह जीता ही रहेगा । जो प्राणी पाप करे  
 सोई मरेगा न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा  
 न पिता पुत्र का धर्मों को अपने ही धर्म का फल  
 २१ और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा । पर यदि  
 दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों  
 को पाले और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न  
 २२ मरेगा जीता ही रहेगा । उस ने जितने अपराध किये हों  
 उन में से किसी का स्मरण उस के विरुद्ध न किया  
 जाएगा जो धर्म का काम उस ने किया हो उस के  
 २३ कारण वह जीता रहेगा । प्रभु यहोवा को यह वाणी है कि  
 क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ क्या मैं  
 इस से प्रसन्न नहीं होंता कि वह अपने मार्ग से फिरकर  
 २४ जीता रहे । पर जब धर्मों अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम  
 बरन दुष्ट के सब धिनौने कामों के अनुसार करने लगे तो  
 क्या वह जीता रहेगा, जितने धर्म के काम उस ने किये  
 हों उन में से किसी का स्मरण न किया जाएगा जो  
 विश्वासघात और पाप उस ने किया हो उस के कारण  
 २५ वह मर जाएगा । तौभी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की  
 गति एकसी नहीं । हे इस्राएल के घराने सुन क्या मेरी  
 गति एकसी नहीं क्या तुम्हारी ही गति बेठीक नहीं है ।  
 २६ जब धर्मों अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगें  
 तो वह उन के कारण से मरेगा अर्थात् वह अपने टेढ़े  
 २७ काम ही के कारण फिर मर जाएगा । फिर जब दुष्ट  
 अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम  
 २८ करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा । वह जो सोच  
 विचार कर अपने सब अपराधों ने फिरा इस कारण न  
 २९ मरेगा जीता ही रहेगा । तौभी इस्राएल का घराना  
 कहता है कि प्रभु की गति एकसी नहीं । हे इस्राएल  
 के घराने क्या मेरी गति एकसी नहीं क्या तुम्हारी गति

बेठीक नहीं । प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि हे ३०  
 इस्राएल के घराने मैं तुम में से एक एक मनुष्य का उस  
 की चाल के अनुसार न्याय करूंगा । फिर और अपने  
 सब अपराधों को छोड़े इस रीति तुम्हारा अधर्म तुम्हारे  
 ठोकर खाने का कारण न होगा । अपने सब अपराधों ३१  
 को जो तुम ने किये हैं दूर करो अपना मन और अपना  
 आत्मा बदल डालो हे इस्राएल के घराने तुम काहें को ३२  
 मरो । क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो  
 मरे उस के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होंता । इसलिये फिरो  
 तब तुम जीते रहोगे ॥

१६ फिर तू इस्राएल के प्रधानों के विषय

यह विलापगीत सुना कि,  
 तेरी माता कौन थी एक सिंहनी थी वह सिंहों के बीच २  
 बैठा करती और अपने डांवरुओं को जवान सिंहों के  
 बीच पालती पोसती थी । अपने डांवरुओं में से उस ने ३  
 एक को पोसा और वह जवान सिंह हो गया और अहरे  
 पकड़ना सीख गया उस ने मनुष्यों को भी फाड़ खाया ।  
 और जाति जाति के लोगों ने उस की चर्चा सुनी और ४  
 उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फंसाया और उस के नकेल  
 डालकर उसे मिस्र देश में ले गये । जब उस की मा ने ५  
 देखा कि मैं धीरज धरे रही मेरी आशा टूट गई तब  
 अपने एक और डांवरु को लेकर उसे जवान सिंह कर ६  
 दिया । सो वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने  
 फिरने लगा और वह भी अहरे पकड़ना सीख गया और ७  
 मनुष्यों को भी फाड़ खाया । और उस ने उन के भवनों  
 को जाना और उन के नगरों को उजाड़ा बरन उस के ८  
 गरजने के डर के मारे देश और जो उस में था सो  
 उजड़ गया । तब चारों ओर के जाति जाति के लोग ९  
 अपने अपने प्रान्त से उस के विरुद्ध आये और उस के  
 लिये जाल लगाया और वह उन के खोदे हुए गड्ढे में १०  
 फंस गया । तब वे उस के नकेल डाल उभे कठघरे में  
 बन्द करके बाबेल के राजा के पास ले गये और गड्ढे में ११  
 बन्द किया कि उस का बोल इस्राएल के पहाड़ी देश में  
 फिर सुनाई न दे ॥

तेरी माता जिस से तू उत्पन्न हुआ' सो जल के १०  
 तीर पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहिरें  
 जल के कारण वह फलों और शाखाओं से भरी हुई  
 थी । और प्रभुता करनेहारों के राजदण्डों के लिये उस में ११  
 मोटी मोटी टहनियां थीं और उस की ऊंचाई इतनी  
 हुई कि वह बादलों के बीच ली पहुँची और अपनी

(१) मूल में तेरे लोह में ।

बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लम्बी दिखाई पड़ी ।  
 १२ तौभी वह जलजलाहट के साथ उखाड़कर भूमि पर  
 गिराई गई और उस के फल पुरवाई लगाने से सूख गये  
 और उस की मोटी टहनियां टूटकर सूख गईं और वे  
 १३ आग से भस्म हो गईं । और अब वह जङ्गल में बरन  
 १४ निर्जल देश में लगाई गई है । और उस की शाखाओं  
 की टहनियों में से आग निकली जिस से उस के फल  
 भस्म हो गये और प्रभुता करने के योग्य राजदण्ड के  
 लिये उस में अब कोई मोटी टहनी नहीं रही ।  
 विलापगीत यही है और विलापगीत बना  
 रहेगा ॥

२० फिर सातवें बरस के पांचवें महीने  
 के दसवें दिन को इस्राएल

के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आये और  
 २ मेरे साम्हने बैठ गये । तब यहोवा का यह वचन मेरे  
 ३ पास पहुँचा कि, हे मनुष्य के सन्तान इस्राएली पुरनियों  
 से यह कह कि प्रभु यहोवा यों कहता है कि क्या तुम मुझ  
 से प्रश्न करने को आये हो प्रभु यहोवा की यह वाणी है  
 कि मेरे जीवन की सोह तुम मुझ से प्रश्न करने न  
 ४ पाओगे । हे मनुष्य के सन्तान क्या तू उन का न्याय न  
 करेगा क्या तू उन का न्याय न करेगा । उन के पुरखाओं  
 ५ के धिनौने काम उन्हें जता दे । और उन से कह कि  
 प्रभु यहोवा यों कहता है कि जिस दिन मैं ने इस्राएल  
 को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से किरिया  
 खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रगट किया  
 और उन से किरिया खाकर कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर  
 ६ यहोवा हूँ । उसी दिन मैं ने उन से यह भी किरिया  
 खाई कि मैं तुम को मिस्र देश से निकालकर एक देश  
 में पहुँचाऊँगा जिसे मैं ने तुम्हारे लिये चुन लिया है वह  
 सब देशों का शिरोमणि है और उस में दूध और मधु  
 ७ की धाराएं बहती हैं । फिर मैं ने उन से कहा जिन  
 धिनौनी वस्तुओं पर तुम में से एक एक की आंखें लगी  
 हैं उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को  
 अशुद्ध न करो मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ ।  
 ८ पर वे मुझ से बिगाड़ गये और मेरी सुननी न चाही  
 जिन धिनौनी वस्तुओं पर उन की आंखें लगी थीं उन  
 को एक एक ने फेंक न दिया और न मिस्र की मूर्तों को  
 छोड़ दिया तब मैं ने कहा मैं यही मिस्र देश के बीच  
 तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊँगा<sup>१</sup> और पूरा  
 ९ कोप दिखाऊँगा । तौभी मैं ने अपने नाम के निमित्त

(१) मूल में उँडेलूंगा ।

काम किया कि वह उन जातियों के साम्हने अपवित्र न  
 ठहरे जिन के बीच वे थे और जिन के देखते मैं ने उन  
 को मिस्र देश से निकालने के लिये अपने को उन पर  
 प्रगट किया था । सो मैं उन को मिस्र देश से निकालकर १०  
 जंगल में ले आया । वहां मैं ने उन को अपनी विधियां ११  
 बताई और अपने नियम बनाये जो मनुष्य उन को  
 माने सो उन के कारण जीता रहेगा । फिर मैं ने उन के १२  
 लिये अपने विश्रामदिन ठहराये जो मेरे और उन के बीच  
 चिन्ह ठहरें कि वे जानें कि मैं यहोवा उन का पवित्र  
 करनेहारा हूँ । तौभी इस्राएल के घराने ने जंगल में १३  
 मुझ से बलवा किया वे मेरी विधियों पर न चले और  
 मेरे नियमों को तुच्छ जाना जिन्हें जो मनुष्य माने सो  
 उन के कारण जीता रहेगा और उन्होंने मेरे विश्रामदिनों  
 को अति अपवित्र किया । तब मैं ने कहा मैं जंगल में  
 इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर<sup>२</sup> इन का अन्त  
 कर डालूँगा । पर मैं ने अपने नाम के निमित्त ऐसा १४  
 काम किया कि वह उन जातियों के साम्हने जिन के  
 देवते मैं उन को निकाल लाया था अपवित्र न ठहरे ।  
 फिर मैं ने जंगल में उन से किरिया खाई कि जो देश मैं १५  
 ने उन को दे दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है  
 जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उस में  
 उन्हें न पहुँचाऊँगा, इस कारण कि उन्होंने मेरे नियम १६  
 तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर न चले और मेरे  
 विश्रामदिन अपवित्र किये थे क्योंकि उन का मन अपनी  
 मूर्तों की ओर लगा हुआ था । तौभी मैं ने उन पर १७  
 तरस की दृष्टि की और उन को नाश न किया और न  
 जंगल में पूरी रीति से उन का अन्त कर डाला । फिर १८  
 मैं ने जंगल में उन की सन्तान मे कहा अपने पुरखाओं  
 की विधियों पर न चलो न उन की रीतियों को मानो न  
 उन की मूर्तें पूजकर अपने को अशुद्ध करो । मैं १९  
 तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ मेरी विधियों पर चलो  
 और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो, और मेरे २०  
 विश्रामदिनों को पवित्र मानो और वे मेरे और तुम्हारे  
 बीच चिन्ह ठहरें जिस से तुम जानो कि मैं तुम्हारा  
 परमेश्वर यहोवा हूँ । पर उस की सन्तान ने भी मुझ से २१  
 बलवा किया वे मेरी विधियों पर न चले न मेरे नियमों  
 के मानने में चौकसी की जिन्हें जो मनुष्य माने सो उन  
 के कारण जीता रहेगा फिर मेरे विश्रामदिनों को उन्होंने  
 अपवित्र किया । तब मैं ने कहा मैं जंगल में उन पर  
 अपनी जलजलाहट भड़काकर<sup>२</sup> अपना कोप दिखाऊँगा ।

(२) मूल में उरुदेलकर ।

२२ तौभी मैं ने हाथ लीच लिया और अपने नाम के निमित्त  
 ऐसा काम किया जिस से वह उन जातियों के साम्हने  
 २३ जिन के देखते मैं उन्हें निकाल लाया था अपवित्र न  
 ठहरे । फिर मैं ने जंगल में उन से किरिया खाई कि मैं  
 २४ तुम्हें जाति जाति में तित्तर बित्तर करूंगा और देश देश  
 में छितरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने ने मेरे नियम न माने और  
 मेरी विधियों को तुच्छ जाना और मेरे विश्रामदिनों को  
 २५ अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की  
 ओर उन की आंखें लगी रहीं । फिर मैं ने उन की ऐसी  
 ऐसी विधियां ठहराईं जो अच्छी न ठहरें और ऐसी  
 २६ ऐसी रीतियां जिन के कारण वे जीते न रहें, अर्थात्  
 वे अपनी सब स्त्रियों के पहिलौठों को आग में होम  
 करने लगे इस रीति मैं ने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा  
 अशुद्ध किया जिस से उन्हें निर्वश कर डालूं और तब  
 वे जान लें कि मैं यहोवा हूं ॥

२७ सो हे मनुष्य के सन्तान तू इस्राएल के घराने  
 से कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं  
 ने इस में भी मेरी निन्दा की कि उन्हीं ने मेरा विश्वास-  
 २८ घात किया । क्योंकि जब मैं ने उन को उस देश में  
 पहुंचाया जिस के उन्हें देने की किरिया मैं ने उन से  
 खाई थी तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने  
 वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेलबलि करने लगे और  
 वहीं रिश दिलानेहारी अपनी भेंटें चढ़ाने लगे और  
 २९ वहीं अपने तपावन देने लगे । तब मैं ने उन से पूछा  
 जिस ऊंचे स्थान का तुम लोग जाते हो उस का क्या  
 प्रयोजन है । इस से उस का नाम आज लों वामा<sup>१</sup>  
 ३० कहलाता है । इसलिये इस्राएल के घराने से कह प्रभु  
 यहोवा तुम से यह पूछता है कि तुम भी अपने पुरखाओं  
 की रीति पर चलकर अशुद्ध बने हो और उन के धिनीने  
 ३१ कामों के अनुसार क्या तुम भी व्यभिचारिन की नाई  
 और अपने लड़केबालों को होम करके आग में चढ़ाते हो  
 तब तब तुम अपनी मूर्तों के निमित्त अशुद्ध ठहरते हो ।  
 हे इस्राएल के घराने क्या तुम मुझ से पूछने पाओ ।  
 प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सांह  
 ३२ तुम मुझ से पूछने न पाओगे । और जो बात तुम्हारे  
 मन में आती है कि हम काठ और पत्थर के उपासक  
 होकर अन्य जातियों और देश देश के कुलों के समान  
 ३३ हो जाएंगे वह किसी भांति पूरी नहीं होने की । प्रभु

(१) मूल में ऊंचा स्थान ।

यहोवा यों कहता है कि मेरे जीवन की सांह निश्चय  
 में बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई<sup>१</sup>  
 हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा ।  
 और मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और ३४  
 भड़काई<sup>२</sup> हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के  
 लोगों में से अलगाऊंगा और उन देशों से जिन में तुम  
 तित्तर बित्तर हो गये हो इकट्ठा करूंगा । और मैं तुम्हें ३५  
 देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आम्हने  
 साम्हने तुम से मुकद्दमा लड़ूंगा । जिस प्रकार मैं तुम्हारे ३६  
 पितरों से मिस्र देशरूपी जंगल में मुकद्दमा लड़ता  
 था उसी प्रकार तुम से मुकद्दमा लड़ूंगा प्रभु यहोवा की  
 यही वाणी है । फिर मैं तुम्हें लाठी के तले में चलाऊंगा ३७  
 और तुम्हें वाचा के बंधन में न डालूंगा । और मैं तुम में ३८  
 से सब बलवाइयों को जो मेरा अपराध करते हैं निकाल-  
 कर तुम्हें शुद्ध करूंगा और जिस देश में वे टिकते हैं उस  
 में से मैं निकाल दूंगा पर इस्राएल के देश में घुसने न  
 दूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं । और हे इस्रा- ३९  
 एल के घराने तुम से तो प्रभु यहोवा यों कहता है कि  
 जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो तो करो  
 और यदि तुम मेरी न सुनेगे तो आगे को भी करो पर  
 मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर  
 अपवित्र न करना । क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है ४०  
 कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र  
 पर्वत पर इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सब का सब मेरी  
 उपासना करेगा वहीं मैं उन से प्रसन्न हूंगा और मैं वहीं  
 तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम  
 वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुम से  
 लिया करूंगा । जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से ४१  
 अलगाऊंगा और उन देशों से जिन में तुम तित्तर  
 बित्तर हुए हो इकट्ठा करूंगा तब तुम को सुखदायक  
 सुगन्ध जानकर प्रहण करूंगा और अन्य जातियों  
 के साम्हने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा ।  
 और जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊंगा जिस के ४२  
 मैं ने तुम्हारे पितरों को देने की किरिया ग्वाई थी तब  
 तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं । और वहां तुम ४३  
 अपने चालचलन और अपने सब कामों को जिन के  
 करने से तुम अशुद्ध हुए स्मरण करोगे और अपने सब  
 बुग कामों के कारण अपनी दृष्टि में धिनीने ठहरोगे । और ४४  
 हे इस्राएल के घराने जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे  
 चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं पर  
 अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूंगा तब तुम

(२) अर्थात् उंडेली ।

जान लोंगे कि मैं यहाँवा हूँ प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

- ४५, ४६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि, हे मनुष्य के सन्तान अपना मुख दक्खिन की ओर कर और दक्खिन की ओर वचन सुना और दक्खिन देश के वन के विषय नबूवत कर, और दक्खिन देश के वन से कह कि यहोवा का यह वचन सुन प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं तुम्हें आग लगाऊंगा और तुम्हें मरने का क्या सूखे जितने पेड़ हैं सब को वह भस्म करेगी उस की धधकती ज्वाला न बुझेगी और उस के कारण ४८ दक्खिन से उत्तर लों सब के मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूख पड़ेगा कि यह आग यहोवा की ४९ लगाई हुई है और वह कभी न बुझेगी। तब मैं ने कहा अहा प्रभु यहोवा लोग तो मेरे विषय कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टान्त ही का कहनेहारा नहीं है ॥

- २ २९. फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि, हे मनुष्य के सन्तान अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना और इस्राएल देश के ३ विषय नबूवत कर, और उस से कह कि प्रभु यहोवा यों कहता है कि मुन मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपनी तलवार मियान में से खींचकर तुम्हें से धर्मी अधर्मी दोनों को ४ नाश करूँगा। मैं जो तुम्हें से धर्मी अधर्मी सब को नाश करनेवाला हूँ इस कारण मेरी तलवार मियान से निकलकर दक्खिन से उत्तर लों सब प्राणियों के ५ विरुद्ध चलेगी। तब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने मियान में से अपनी तलवार खींची है और वह उस में ६ फिर रक्खी न जाएगी। सो हे मनुष्य के सन्तान तू आह मार भारी खेद और कर्मर टूटने के साथ लोगों के ७ साम्हने आह मार। और जब वे तुम्हें से पूछें कि तू क्यों आह मारता है तब कहना, समाचार के कारण क्योंकि ऐसी बात आनेवाली है कि सब के मन टूट जाएंगे और सब के हाथ ढीले पड़ेंगे और सब के आत्मा बेबस और सब के घुटने निर्बल हो जाएंगे सुनो ऐसी ही बात आनेवाली है और वह अवश्य होगी प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

- ८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा ९ कि, हे मनुष्य के सन्तान नबूवत करके कह कि प्रभु

(१) मूल में फिरवार टपका ।

(२) मूल में जल की नाई निर्बल ।

यहोवा यों कहता है कि ऐसा कह कि देख तलवार सान चढ़ाई और भलकाई हुई तलवार। वह इसलिये १० सान चढ़ाई गई कि उस से घात किया जाए और इसलिये भलकाई गई कि बिजली की नाई चमके तो क्या हम हर्षित हों। वह तो यहोवा के पुत्र का राजदण्ड और सब पेड़ों की तुच्छ जाननेहारी है। और वह ११ भलकाने को इसलिये दी गई कि हाथ में ली जाए वह इसलिये सान चढ़ाई और भलकाई गई कि घात करनेहार के हाथ में दी जाए। हे मनुष्य के सन्तान १२ चिह्ना और हाथ हाथ कर क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती वह इस्राएल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है मेरी प्रजा के संग ये भी तलवार के वश में आ गये इस कारण तू अपनी छाती पीट। क्योंकि जांचना है १३ और यदि तुच्छ जाननेहारा राजदण्ड भी न रहे तो क्या। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। सो हे मनुष्य के सन्तान १४ नबूवत कर और हाथ पर हाथ दे मार और तीन बार तलवार का बल दुगना किया जाए वह तो घात करने की तलवार बरन बड़े से बड़े के घात करने की वह तलवार है जिस से कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता। मैं १५ ने घात करनेहारी तलवार को उन के सब फाटकों के विरुद्ध इसलिये चलाया है कि लांगों के मन टूट जाए और वे बहुत ठोकर खाए हाथ हाथ वह तो बिजली के समान बनाई गई और घात करने को सान चढ़ाई गई है। सिकुड़कर दहिनी ओर जा फिर नैयार होकर याई १६ और मुड़ जिधर ही तेरा मुख हो। मैं भी हाथ पर हाथ १७ दे मारूँगा और अपनी जलजलाहट को थाँभूँगा मुझ यहोवा ने ऐसा कहा है ॥

फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि, १८ हे मनुष्य के सन्तान दो मार्ग ठहरा ले कि बाबेल के १९ राजा की तलवार आए दोनों मार्ग एक ही देश से निकलें फिर एक चिन्ह कर अर्थात् नगर के मार्ग के सिरे पर एक चिन्ह कर। एक मार्ग ठहरा कि तलवार २० अम्मोनियों के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़वाले नगर यरूशलेम पर चले। क्योंकि बाबेल का राजा २१ तिर्मुहाने अर्थात् दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी भूकने को खड़ा हुआ उस ने तीरों का हिला दिया यहदेवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा। उस के दहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वह २२ उस की ओर युद्ध के यन्त्र लगाये और घात करने की

(३) मूल में मेरे। (४) मूल में जाँघ।

(५) मूल में जो उन को कोठरियों में पँठता है। (६) मूल में भावी।

आशा गला फाड़कर दे और ऊंचे शब्द से ललकारे और फाटकों की ओर युद्ध के यन्त्र लगाए और धुस बांधे २३ और कोट बनाए । और लोग तो उस भावी कहने को मिथ्या समझेंगे पर उन्होंने ने जो उन की किरिया खाई है इस कारण वह उन के अधर्म का स्मरण कराकर उन्हें पकड़ लेगा ॥

२४ इस कारण प्रभु यहाँवा यों कहता है कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण आया और तुम्हारे अपराध जो खुल गये और तुम्हारे सब कामों में जो पाप ही पाप देख पड़ा है और तुम जो स्मरण में आये हो इसलिये तुम हाथ से पकड़े जाओगे । और हे इस्राएल के असाध्य घायल दुष्ट प्रधान तेरा दिन आ गया है अधर्म के २५ अन्त का समय पहुँचा है । तेरे विषय प्रभु यहोवा यों कहता है कि पगड़ी उतार और मुकुट दे वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का जो नीचा है उसे ऊँचा कर और जो २६ ऊँचा है उसे नीचा कर । मैं इस को उलट दूँगा उलट दूँगा उलट दूँगा वह भी जब लों उस का अधिकारी न आए तब लों उलटा हुआ रहेगा तब मैं उस को दूँगा ॥

२७ फिर हे मनुष्य के सन्तान नबूवत करके कह कि प्रभु यहोवा अम्मोनियों और उन की की हूट नामधराई के विषय यों कहता है सो तू यों कह कि खिंची हुई तलवार है तलवार वह घात के लिये झूलकाई हुई है कि २८ नाश करे और बिजली के समान हो, जब कि वे तेरे विषय झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझ को बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े जिन का दिन आ गया और उन के अधर्म के अंत का समय २९ पहुँचा है । उस को मियान में फिर रखा दे जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई उसी ३० में मैं तेरा न्याय करूँगा । और मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊँगा और तुझ पर अपनी जलजलाहट का आग फूंक दूँगा और तुझे पशु सरीखे मनुष्यों के हाथ कर दूँगा जो नाश करने में निपुण हैं । तू आग का कौर हाँगी ३१ तेरा खून देश में बना रहेगा तू स्मरण में न रहेगी क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है ॥

२२. फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि, हे मनुष्य के सन्तान क्या तू उस खूनी नगर का न्याय न करेगा क्या तू उस का न्याय न करेगा उस को उस के सब धिनौने काम जता दे । और कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि एक नगर जो अपने बीच में खून करता है जिस से उस

(१) मूल में उलटेलूँगा ।

का समय आए और अपनी हानि करने के लिये अशुद्ध होने को मूर्तें बनाता है । जो खून तू ने किया है उस ४ से तू दोषी ठहरी और और जो मूर्तें तू ने बनाई हैं उन के कारण तू अशुद्ध हो गई तू ने अपने अंत के दिन नियरा लिये और अपने पिछले बरसों तक पहुँच गई इस कारण मैं ने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नामधराई का और सब देशों के ठट्टे का कारण कर दिया । हे बदनाम हे हुल्लड़ रो भर हुये नगर जो निकट ५ हैं और जो दूर हैं वे सब तुझे ठट्टों में उड़ाएँगे । सुन इस्राएल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में खून करनेहार हुए हैं । तुझ में माता पिता तुच्छ ६ किये गये हैं और तेरे बीच परदेशी पर अन्धे र किया गया और तुझ में अपमृआ और विधवा पीसी गई हैं । तू ने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे ७ विश्रामदिनों को अपवित्र किया है । तुझ में लुतरे लोग खून करने का तत्पर हुये और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है और तेरे बीच महापाप किया गया है । तुझ में पिता की देह उधारी गई और तुझ में श्रुतमती १० स्त्री से भी भोग किया गया है । तुझ में किसी ने पड़ोसी की स्त्री के साथ धिनौना काम किया और किसी ने अपनी बहू को विगाड़कर महापाप किया और किसी ने अपनी बहिन अर्थात् अपने पिता की बेटी को भ्रष्ट किया है । तुझ में खून करने के लिये दाम लिया गया है तू ने १२ व्याज और बढ़ातरी ली और अपने पड़ोसियों को पीस पीसकर अन्याय से लाभ उठाया और मुझ को तो तू ने धिसरा दिया है प्रभु यहोवा का यहाँ वाणी है । सो १३ सुन जो लाभ तू ने अन्याय से उठाया और अपने बीच खून किया है उस पर मैं ने हाथ पर हाथ दे मारा है । मेा जिन दिनों में मैं तेरा विचार करूँगा उन में क्या १४ तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूँगा । और मैं तेरे लोगों १५ को जाति जाति में तित्तर धित्तर करूँगा और देश देश में छितरा दूँगा और तेरी अशुद्धता का तुझ में से नाश करूँगा । और तू जाति जाति के देवतों अपने लेखे १६ अपवित्र ठहरेगी तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ ॥

फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा १७ कि, हे मनुष्य के सन्तान इस्राएल का घराना मेरे १८ लेखे धातु का मैल हो गया वे सब के सब मट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गये वे चाँदी के मैल ही सरीखे हो गये हैं । इस कारण १९ प्रभु यहोवा उन से यों कहता है कि तुम सब के सब जो धातु के मैल के समान बन गये हो इसलिये सुनो

- मैं तुम को यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ ।  
 २० जैसे लोग चांदी पीतल लोहा शीशा और रांगा इसलिये भट्टी के भीतर बटोरकर रखते कि उन्हें आग फूंककर पिघलाएं वैसे ही मैं तुम को अपने कोप और जलजला-  
 २१ हट से इकट्ठा कर वहीं रखकर पिघला दूंगा । मैं तुम को वहां बटोरकर अपने रोष की आग में फूंकूंगा सो तुम  
 २२ उस के बीच पिघलाये जाओगे । जैसे चांदी भट्टी के बीच पिघलाई जाती है वैसे ही तुम उस के बीच पिघलाये जाओगे तब तुम जान लोगे कि जिस ने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है सो यहोवा है ॥  
 २३ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि,  
 २४ हे मनुष्य के सन्तान उस देश से कह कि तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर  
 २५ वर्षा नहीं हुई । तुझ में तेरे नबियों ने राजद्रोह की गोष्ठी की उन्होंने ने गरजनेहारे सिंह की नाई अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है वे रक्खे हुए अनमोल धन को छीन लेते और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है । फिर उस के राजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांचकर लगाया और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है उन्होंने ने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है और वे मेरे विश्रामदिनों के विषय निश्चिन्त रहते हैं<sup>२</sup> और मैं उन  
 २७ के बीच अपवित्र ठहरता हूँ । फिर उस के हाकिम हुंड़ारों की नाई अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिये खून करते और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं ।  
 २८ फिर उस के नबी उन के लिये कच्ची लेसाई करते हैं उन का दशन पाना मिथ्या है और यहोवा के विना कुछ कहें वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यों  
 २९ कहता है । फिर देश के साधारण लांग अन्धेर करते और पराया धन छीनते और दीन दरिद्र को पीसते और न्याय  
 ३० की चिन्ता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं । और मैं ने उन में ऐसा मनुष्य ढूँढा जो बाड़े को सुधार और देश के निमित्त नाके में मेरे साम्हने ऐसा खड़ा हो कि मुझे तुझ को नाश न करना पड़े पर ऐसा कोई न मिला ।  
 ३१ इस कारण मैं ने उन पर अपना रोष भड़काया<sup>३</sup> और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया और उन की चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी प्रभु यहोवा की यही बाणी है ॥

(१) मूल में उगडेली ।

(२) मूल में अपनी आंखें छिपाते हैं ।

(३) मूल में उगडेली ।

## २३. फिर यहोवा का यह वचन मेरे

- पास पहुंचा कि, हे मनुष्य २  
 के संतान दो स्त्रियां थीं जो एक ही मा की बेटी थीं ।  
 वे अपने वचन ही में वेश्या का काम मिस्र में करने ३  
 लगीं उन की छातियां कुंवारपन में पहिले वहीं मीजी गईं  
 और उन का मरदन भी हुआ । उन लक्ष्मियों में से बड़ी ४  
 का नाम ओहोला और उस की बहिन का नाम ओहो-  
 लीबा था और वे मेरी हो गईं और मेरे जन्मायें बेटे बेटियां  
 जनीं । उन के नामों में से ओहोला तो शोमरोन का और ५  
 ओहोलीबा यरूशलेम का नाम है । और ओहोला जब  
 मेरी थी तब व्यभिचारिन होकर कपने यारों पर ६  
 मोहित होने लगी जो उस के पड़ोसी अशशूरी थे । वे  
 तो सब के सब नीले वस्त्र पहिननेहारे और घोड़ों  
 के सवार मनभावने जवान अधिपति और और ७  
 प्रकार के हाकिम थे । सो उन्हीं के साथ जो सब के  
 सब श्रेष्ठ अशशूरी थे उस ने व्यभिचार किया और  
 जिस किसी पर वह मोहित हुई उस की मूरतों से वह ८  
 अशुद्ध हुई । और जो व्यभिचार उस ने मिस्र में सीखा था  
 उस को भी उस ने न छोड़ा वचन में तो उस ने उन के ९  
 साथ कुकर्म किया और उस की छातियां मीजी गईं  
 और तन मन से उस के संग व्यभिचार किया गया था ।  
 इस कारण मैं ने उस को उस के अशशूरी यारों के हाथ १०  
 कर दिया जिन पर वह मोहित हुई थी । उन्हीं ने उस  
 को नंगी कर उस के बेटे बेटियां छीनकर उस को तलवार ११  
 से घात किया इस रीति उन के हाथ से दण्ड पाकर वह  
 स्त्रियां में प्रसिद्ध हो गईं । फिर उस की बहिन ओहो- १२  
 लीबा ने यह देखा तो भी मोहित होकर व्यभिचार करने  
 में अपनी बहिन से भी अधिक बढ़ गई । वह अपने अशशूरी १३  
 पड़ोसियों पर मोहित होती थी जो सब के सब अति  
 सुन्दर वस्त्र पहिननेहारे और घोड़ों के सवार मनभावने १४  
 जवान अधिपति और और प्रकार के हाकिम थे । तब मैं ने  
 देखा कि वह भी अशुद्ध हो गईं उन दोनों बहिनों की एक १५  
 ही चाल थी । और ओहोलीबा अधिक व्यभिचार करती  
 गईं सो जब उस ने भीत पर सेंदूर से खिंचे हुए ऐसे १६  
 कसदी पुरुषों के चित्र देखे, जो कटि में फेंटे बांधे हुए  
 सिर में छोर लटकती रंगीली पगड़ियां दिये हुए और सब १७  
 के सब अपनी जन्मभूमि कसदी बाबेल के लोगों की रीति  
 प्रधानों का रूप धरे हुए थे, तब उन को देखते ही वह १८  
 उन पर मोहित हुई और उन के पास कसदियों के देश में  
 दूत भेजे । सो बाबेली लोग उस के पास पलंग पर आये १९  
 और उस के साथ व्यभिचार करके उस को अशुद्ध किया

(४) मूल में बेटों ।

और जब वह उन से अशुद्ध हुई तब उस का मन उन  
 १८ से फिर गया । तौभी वह तन उघाड़ती और व्यभिचार  
 करती गई तब मेरा मन जैसे उस की बहिन से फिर गया  
 १९ था वैसे ही उस से भी फिर गया । तौभी अपने बचपन  
 के दिन जब वह मिस्र देश में वेश्या का काम करती थी  
 २० स्मरण करके वह अधिक व्यभिचार करती गई । वह ऐसे  
 यारों पर मोहित हुई जिन का मांस गदहों का सा और  
 २१ वीर्य घोड़ों का सा था । इस प्रकार से तू अपने बचपन  
 के उस समय के महापाप का स्मरण कराती है जब  
 मिस्री लोग तेरी छ्वातियां मीजते थे ॥  
 २२ इस कारण हे ओहोलीबा प्रभु यहोवा तुझ से यों  
 कहता है कि सुन मैं तेरे यारों को उभारकर जिन से तेरा  
 २३ मन फिर गया चारों ओर से तेरा विरुद्ध ले आऊंगा, अर्थात्  
 बाबेलियों और सब कसदियों को और पकोद शो और को  
 के लोगों को और उन के साथ सब अशूरियों को लाऊंगा  
 जो सब के सय घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधि-  
 २४ पति और और प्रकार के हाकिम प्रधान और नामी पुरुष  
 हैं । वे लोग हाथियार रथ लकड़े और देश देश के लोगों  
 का दल लिये हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे और ढाल और  
 फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारों ओर पांति  
 बांधेंगे और मैं न्याय का काम उन्हीं के हाथ सौंपूंगा और  
 वे अपने अपने नियम के अनुसार तेरा न्याय करेंगे ।  
 २५ और मैं तुझ पर जलूंगा और वे जलजलाहट के साथ  
 तुझ से बर्ताव करेंगे वे तेरी नाक और कान काट  
 लेंगे और तेरा जो बचा रहेगा सो तलवार से मारा  
 जाएगा वे तेरे बेटे बेटियों को छीन ले जाएंगे और तेरा  
 २६ जो बचा रहेगा सो आग से भस्म ही जाएगा । और वे  
 तेरे वस्त्र उतारकर तेरे सुन्दर सुन्दर गहने छीन ले  
 २७ जाएंगे । इस रीति मैं तेरा महापाप और जो वेश्या का  
 काम तू ने मिस्र देश में सीखा था उसे भी तुझ से  
 छुड़ाऊंगा यहां लो कि तू फिर अपनी आंख उन की  
 ओर न लगाएगी न मिस्र देश को फिर स्मरण करेगी ।  
 २८ क्योंकि प्रभु यहोवा तुझ से यों कहता है कि सुन मैं  
 तुम्हें उन के हाथ सौंपूंगा जिन से तू बैर रखती और  
 २९ तेरा मन फिरा है । और वे तुझ से बैर के साथ बर्ताव  
 करेंगे और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे और तुम्हें नंग  
 धड़ंग करके छोड़ देंगे और तेरे तन के उघाड़े जाने से  
 ३० तेरा व्यभिचार और महापाप प्रगट हो जाएगा । ये  
 काम तुझ से इस कारण किये जाएंगे कि तू अन्य-  
 जातियों के पीछे व्यभिचारिन की नाई हो ली और  
 ३१ उन की मूर्तों पूजकर अशुद्ध हो गई है । तू अपनी  
 बहिन की लीक पर चली है इस कारण मैं तेरे हाथ

में उस का सा कटोरा दूंगा । प्रभु यहोवा यों कहता कि ३२  
 अपनी बहिन के कटोरों से जो गहिरा और चौड़ा है तुम्हें  
 पीना पड़ेगा तू हंसी और ठट्टों में उड़ाई जाएगी क्योंकि  
 उस कटोरे में बहुत कुछ समाना है । तू मतवालेपन और ३३  
 दुःख से छुक जाएगी तू अपनी बहिन शोमरोन के कटोरे  
 को अर्थात् विस्मय और उजाड़ को पीकर छुक जाएगी ।  
 उस में से तू गार गारकर पीएगी तू उस के ठिकरों को ३४  
 भी चबाएगी और अपनी छ्वातियां घायल करेगी क्योंकि  
 मैं ही ने ऐसा कहा है प्रभु यहोवा की यही वाणी है । तू ३५  
 ने जो मुझे बिसरा दिया और पीठ पीछे कर दिया है इस-  
 लिये अपने महापाप और व्यभिचार का भार तू आप  
 उठा ले प्रभु यहोवा का यही वचन है ॥

फिर यहोवा ने मुझ से कहा हे मनुष्य के सन्तान ३६  
 क्या तू ओहोला और ओहोलीबा का न्याय करेगा तो  
 उन के घिनौने काम उन्हें जता दे । उन्हीं ने तो व्यभि- ३७  
 चार किया है और उन के हाथों में खून लगा है उन्हीं  
 ने अपनी मूर्तों के साथ भी व्यभिचार किया और अपने  
 लड़केवाले जो वे मरे जन्माये जनी थीं उन मूर्तों के  
 आगे भस्म होने के लिये चढ़ाये हैं । फिर उन्हीं ने मुझ ३८  
 से ऐसा बर्ताव भी किया कि उसी दिन मरे पवित्र स्थान  
 को अशुद्ध किया और मेरे विश्रामदिनों को अपवित्र  
 किया । वे अपने लड़केवाले अपनी मूर्तों के साम्हने ३९  
 बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्रस्थान अपवित्र करने  
 को उस में घुसी देख इस भांति का काम उन्हीं ने मेरे  
 भवन के भीतर किया है । और फिर उन्हीं ने पुरुषों को ४०  
 दूर से बुलवा भेजा और वे चले आये और उन के  
 लिये तू नहा धो आंखों में अंजन लगा गहने पहिन-  
 कर, सुन्दर पलंग पर बैठी रही और उस के साम्हने एक ४१  
 मेज बिछी हुई थी जिस पर तू ने मेरा धूप और मेरा तेल  
 रक्खा था । तब उस के साथ निश्चिन्त लोगों की भीड़ ४२  
 का कोलाहल सुन पड़ा और उन साधारण लोगों के  
 पास जंगल से बुलाये हुए पियङ्गु लोग भी थे जिन्हों  
 ने उन दोनों बहिनों के हाथों में चूड़ियां पहिनाई और  
 उन के सिरों पर शोभायमान मुकुट रक्खे । तब जो ४३  
 व्यभिचार करते करते बुढ़ा गई थी उस के विषय  
 मैं बोल उठा अब तो वे उसी के साथ व्यभिचार  
 करेंगे । सो वे उस के पास ऐसे गये जैसे ४४  
 लोग वेश्या के पास जाते हैं वे ओहोला और ओहो-  
 लीबा नाम महापापिन स्त्रियों के पास वैसे ही गये ।  
 सो धर्मी लोग व्यभिचारिनों और खून करनेहारियों के ४५  
 साथ उन के योग्य न्याय करेंगे क्योंकि वे व्यभिचारिन  
 तो हैं और खून उन के हाथों में लगा है । इस कारण ४६



प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं एक भीड़ से उन पर चढ़ाई कराकर उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी ४७  
फिरेंगी और लूटी जाएंगी । और उस भीड़ के लोग उन को पत्थरवाह करके उन्हें अपनी तलवारों से काट डालेंगे तब वे उन के बेटे बेटियों को घात करके आग ४८  
लगाकर उन के घर फूंक देंगे । सो मैं महापाप को देश में से दूर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर ४९  
तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी । और तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पड़ेगा और तुम अपनी मूरतों की पूजा के पापों का भार उठाओगे और तुम जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ ॥

## २४. फिर नवें बरस के दसवें महीने के दसवें दिन को यहोवा का

२ यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के सन्तान आज का दिन लिख रख क्योंकि आज ही के दिन बाबेल का ३  
राजा यरूशलेम के निकट जा पहुंचा है । और इस बलवा करनेहारों घराने से यह दृष्टान्त कह कि प्रभु यहोवा कहता है कि हण्डे को आग पर धर दे धर फिर उस में ४  
पानी डाल । तब उस में जांघ कन्धा सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोरकर रख और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से ५  
भर दे । भुंड में से सब से अच्छे पशु ले और उन हड्डियों का हण्डे के नीचे ढेर कर और उस को भली भांति सिंभा और भीतर की हड्डियां भी सीभ जाएं ॥  
६ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है कि हाय उस खूनी नगरी पर हाय उस हण्डे पर जिस का मोर्चा उस में बना है और छूटा न हो उस में से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल ली उस पर चिट्ठी न डाली ७  
जाए । क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उस में है उस ने उसे भूमि पर डालकर धूलि से नहीं ढांपा पर ८  
नंगी चटान पर रख दिया है । इस लिये कि पलटा लेने को जलजलाहट भड़के मैं ने भी उस का खून नंगी ९  
चटान पर रक्खा है कि वह ढंप न सके । प्रभु यहोवा यों कहता है कि हाय उस खूनी नगरी पर मैं आप ढेर १०  
को बढ़ा करूंगा । बहुत लकड़ी डाल आग को बहुत तेज कर मांस को भली भांति सिंभा गाढ़ा जूस बना ११  
और हड्डियां जल जाएं । तब हंडे को छूछा करके अंगारों पर रख जिस से वह गर्म हो और उस का पीतल जले और उस में का मैल गले और उस का १२  
मोर्चा नाश हो जाए । मैं उस के कारण परिभ्रम करते करते थक गया पर उस का भारी मोर्चा उस से छूटता

नहीं उस का मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता । हे १३  
नगरी तेरी अशुद्धता महापाप की है मैं तो तुम्हें शुद्ध करता था पर तू शुद्ध नहीं हुई इस कारण जब लौ मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर से शांत न करूं तब लौ तू फिर शुद्ध न की जाएगी । मुझ यहोवा ही ने यह १४  
कहा है वह हो जाएगा और मैं ऐसा करूंगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न तुझ पर तरस खाऊंगा न पछताऊंगा तेरे चालचलन और कामों के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, १५  
हे मनुष्य के सन्तान सुन मैं तेरी आंखों के प्यारे को १६  
मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं पर तू न रोना न पीटना न आंसू बहाना । लम्बी सांसें खींच तो खींच पर सुनाई १७  
न पड़े मरे हुआओं के लिये विलाप न करना सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहना और न तो अपने हाँठ को ढांपना न शोक के योग्य रोटी खाना । सो मैं सबेरे १८  
लोगों से बोला और सांभ को मेरी स्त्री मर गई और बिहान को मैं ने आज्ञा के अनुसार किया । तब लोग मुझ १९  
से कहने लगे क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है इस का हम लोगों के लिये क्या अर्थ है । मैं ने २०  
उन को उत्तर दिया कि यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, तू इस्राएल के घराने से कह प्रभु यहोवा यों २१  
कहता है कि सुनो मैं अपने पवित्रस्थान को अपवित्र करने पर हूँ जिस के गढ़वाले होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है और जिस को तुम्हारा मन चाहता है और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आये हो सो तलवार से मारे जाएंगे । और जैसा मैं ने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे तुम २२  
भी अपने हाँठ न ढांपोगे और न शोक के योग्य रोटी खाओगे । और तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पांवों में २३  
जूती पहिने रहोगे, तुम न रोओगे न पीटोगे बरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कहराहते रहोगे । इस रीति यहजकेल २४  
तुम्हारे लिये चिन्ह ठहरेगा जैसा उस ने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे और जब यह हो जाएगा तब तुम जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ ॥

और हे मनुष्य के सन्तान क्या यह सच नहीं २५  
कि जिस दिन मैं उन का दृढ़ गढ़ उन की शोभा और हर्ष का कारण और उन के बेटे बेटियां जो उन की शोभा का आनन्द और उन की आंखों और

(१) मूल में तेरी आंख के चाहे हुए की

२६ मन का चाहा हुआ है उन को उन से ले लूंगा । उसी दिन जो भागकर बचेगा सो तेरे पास आकर तुझे समा-  
 २७ चार सुनाएगा । उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप न रहेगा उस बचे हुए के साथ बातें ही करेगा सो तू इन लोगों के लिये चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

२५. फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के

सन्तान अम्मोनियों की और मुंह करके उन के  
 ३ विषय नब्रवत कर । और उन से कह हे अम्मोनियों प्रभु यहोवा का वचन सुनो प्रभु यहोवा यों कहता है कि तुम ने जो मेरे पवित्रस्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया और इस्राएल के देश के विषय जब वह उजड़ गया और यहूदा के घराने के विषय जब वे बन्धु-  
 ४ आई में गये आहा कहा । इस कारण सुनो मैं तुम्हें को पूरवियों के अधिकार में करने पर हूँ और वे तेरे बीच अपनी छावनियां डालेंगे और अपने घर बनाएंगे तेरे  
 ५ पल वे खाएंगे और तेरा दूध वे पीएंगे । और मैं रब्बा नगर को ऊंटों के रहने और अम्मोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा तब तुम जान  
 ६ लोंगे कि मैं यहोवा हूँ । क्योंकि प्रभु यहोवा यों कहता है कि तुम ने जो इस्राएल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनन्द  
 ७ किया, इस कारण मुन मैं ने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुम्हें को जाति जाति की लूट कर दूंगा और देश देश के लोगों में से तुम्हें मिटाऊंगा और देश देश में से नाश करूंगा मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ ॥  
 ८ प्रभु यहोवा यों कहता है कि मोआब और सेईर जो कहते हैं देगा यहूदा का घराना और सब जातियों  
 ९ के समान हो गया है, इस कारण सुन मोआब के देश के किनारे के नगरों को वेन्यशीमेत बालमेन और क्रियातैम जो उस देश के शिरोमणि हैं मैं उन का मार्ग  
 १० खोलकर, उन्हें पूरवियों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़कर जाएं और मैं अम्मोनियों का यहां लों उन के अधिकार में दूंगा कि जाति जाति के  
 ११ बीच उन का म्भरण फिर न रहे । और मैं मोआब को भी दण्ड दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

(१) मूल में कन्वा ।

फा० ९३

प्रभु यहोवा यों भी कहता है कि एदोम ने जो यहूदा  
 के घराने से पलटा लिया और उन से पलटा लेकर बड़ा  
 दोषी हो गया है, इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है  
 कि मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उस  
 में से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से  
 लेकर ददान लों उस को उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार  
 से मारे जाएंगे । और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के द्वारा अपना  
 पलटा एदोम से लूंगा और वे उस देश में मेरे कोप और  
 जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे तब वे मेरा पलटा  
 लेना जान लेंगे प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

प्रभु यहोवा यों कहता है कि पलिश्ती लोगों ने जो  
 पलटा लिया बरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण  
 अपने मन के अभिमान से पलटा लिया कि नाश करें,  
 इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है कि सुन मैं पलिश्तियों  
 के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और करेतियों  
 को मिटा डालूंगा और समुद्रतीर के बचे हुए रहनेहारों  
 को नाश करूंगा । और मैं जलजलाहट के साथ मुकद्मा  
 लड़कर उन से कड़ाई के साथ पलटा लूंगा और जब  
 मैं उन से पलटा लूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं  
 यहोवा हूँ ॥

२६. फिर ग्यारहवें बरस के पहिले महीने के पहिले दिन को यहोवा का

यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के सन्तान  
 मेर ने जो यरूशलेम के विषय कहा है आहा जो देश  
 देश के लोगों के पाटक सी थी वह नाश हो गई उस के  
 उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा, इस कारण प्रभु  
 यहोवा कहता है कि हे मेर सुन मैं तेरे विरुद्ध हूँ और  
 ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसे उठेंगी  
 जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं । और वे मेर का शहर-  
 पनाह को गिराएंगी और उस के गुम्मतों को तोड़ डालेंगी  
 मैं उस की मिट्टी उस पर से खुरचकर उसे नंगी चटान  
 कर दूंगा । वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का  
 स्थान हो जाएगा क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है  
 कि यह मेरा ही वचन है और वह जाति जाति से लुट  
 जाएगा । और उस की जो बेटियां मैदान में हैं सो तल-  
 वार से मारी जाएंगी तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ।  
 क्योंकि प्रभु यहोवा यह कहता है कि सुन मैं मेर के  
 विरुद्ध राजाधिराज बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर को  
 घोटें और रथों और सवारों और बड़ी भीड़ और दल  
 समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा । और तेरी जो बेटियां  
 मैदान में हैं उन को वह तलवार से मारेगा और तेरे

- विरुद्ध केट बनाएगा और धुस बांधेगा और ढाल उठा-  
 १. एगा । और वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यन्त्र  
 चलाएगा और तेरे गुम्मतों को फरसों से ढा डालेगा ।  
 १० उस के घोड़े इतने होंगे कि तू उन की धूलि से ढंपेगा  
 और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग  
 नाकेवाले नगर में घुसते हैं तब तेरी शहरपनाह सवारों  
 ११ लुकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेगी । वह अपने  
 घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को खुन्द डालेगा और  
 तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा और तेरे  
 १२ बल के खंभे भूमि पर गिराये जाएंगे । और लोग तेरा  
 धन लूटेंगे और तेरे ब्योपार की वस्तुए छीन लेंगे और  
 तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरे मनभाऊ घर तोड़  
 डालेंगे और तेरे पथर और काठ और तेरी धूलि  
 १३ जल में फेंक देंगे । और मैं तेरे गीतों का सुरताल  
 बन्द करूंगा और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न  
 १४ देगी । और मैं तुझे नंगी चटान कर दूंगा तू जाल  
 फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न  
 जाएगा क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है प्रभु यहोवा  
 की यही वाणी है ॥
- १५ प्रभु यहोवा सौर से यों कहता है कि तेरे गिरने  
 के शब्द से जब घायल लोग कहेंगे और तुझ में घात  
 १६ ही घात होगा तब क्या टापू टापू न कांप उठेंगे । तब  
 समुद्रतीर के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर  
 से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतार थर-  
 थराहट के वस्त्र पहिनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण  
 १७ में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे । और वे तेरे  
 विषय विलाप का गीत बनाकर तुझ से कहेंगे हाय मल्लाहों  
 की? बसाई हुई हाय सराही हुई नगरी जो समुद्र के  
 बीच निवासियों समेत सामर्थी रही और सब टिकनेहारों  
 १८ की डरानेहारी नगरी थी तू कैसी नाश हुई है । अब तेरे  
 गिराने के दिन टापू टापू कांप उठेंगे और तेरे जाते रहने  
 १९ के कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएंगे । क्योंकि प्रभु  
 यहोवा यों कहता है कि जब मैं तुझे निर्जन नगरों के  
 समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढाऊंगा  
 २० और तू गहरे जल में डूब जाएगा, तब गड़हे में और  
 और गिरनेहारों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में  
 उतार दूंगा और गड़हे में और गिरनेहारों के संग तुझे भी  
 नीचे के लोक में<sup>२</sup> रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए  
 स्थानों के समान कर दूंगा यहां लों कि तू फिर न बसेगा  
 और तब मैं जीवन के लोक में अपना शिरोमणि

(१) मूल में समुद्रों से । (२) मूल में निचले स्थानों के देश में ।

रखूंगा । और मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा कि २१  
 तू आगे रहेगा ही नहीं बरन ढूंढने पर भी तेरा पता न  
 लगेगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

२७. फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास  
 पहुंचा कि, हे मनुष्य के सन्तान २  
 मोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर, उस से यों ३  
 कह कि हे समुद्र के पैठाव पर रहनेहारी हे बहुत से द्वीपों  
 के लिए देश देश के लोगों के साथ ब्योपार करनेहारी  
 प्रभु यहोवा यों कहता है कि हे सौर तू ने तो कहा है  
 कि मैं सर्वांग सुन्दर हूँ । तेरे सिवाने समुद्र के बीच हैं ४  
 तेरे बनानेहारों ने तुझे सर्वांग सुन्दर बनाया । तेरी सब ५  
 पटरियां सनीर पर्वत के सनीवर की लकड़ी की बनीं  
 तेरे मस्तूल के लिये लबानेन के देवदार लिये गये । तेरे ६  
 डांड याशान के बांजवृक्षों के बने तेरे जहाजों का पटाव  
 किसियों के द्वीपों से लाये हुए सीधे सनीवर की हाथी-  
 दांत जड़ी हुई लकड़ी का बना । तेरे जहाजों के पाल ७  
 मिश्र से लाये हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे  
 लिये भण्डे का काम दें तेरी चांदनी एलीशा के द्वीपों से  
 लाये हुए नीले और बैजनी रंग के कपड़े की बनी । तेरे ८  
 खेवनेहारे सीदोन और अर्बद के रहनेहारे थे हे मोर तेरे  
 ही बीच के बुद्धिमान् लोग तेरे मांभी थे । तेरे गावनेहारों ९  
 गबल नगर के पुरनिये और बुद्धिमान् लोग थे तुझ में  
 ब्योपार करने के लिये मल्लाहों समेत समुद्र पर के सब  
 जहाज तुझ में आ गये थे । तेरी सेना में फारसी लूदी १०  
 और पूर्ती लोग भरती हुए थे उन्होंने ने तुझ में ढाल और  
 टोपी टांगी तेरा प्रताप उन के कारण हुआ था । तेरी ११  
 शहरपनाह पर तेरी सेना के साथ अर्बद के लोग चारों  
 ओर थे और तेरे गुम्मतों में शूरवीर खड़े थे उन्होंने ने  
 अपनी ढालें तेरे चारों ओर की शहरपनाह पर टांगी थीं १२  
 तेरी सुन्दरता उन के द्वारा पूरी हुई थी । अपनी सब  
 प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तर्शाशी लोग १३  
 तेरे ब्योपारी थे उन्होंने ने चांदी लांहा रांगा और सीसा  
 देकर तेरा माल मोल लिया । यावान दूबल और मेशेक १४  
 के लोग दास दासी और पीतल के पात्र तेरे माल के  
 बदले देकर तेरे ब्योपारी थे । तोमर्मा के घराने के लोगों १५  
 ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े सवारों के घोड़े और खच्चर  
 दिये । दवानी तेरे ब्योपारी थे बहुत से द्वीप तेरे हाट बने १५  
 थे वे तेरे पास हाथीदांत की सींग और आबनूस की  
 लकड़ी ब्योपार में ले आये थे । तुझ में जो बहुत कारीगरी १६  
 हुई इस से अराम तेरा ब्योपारी था मरकत बैजनी  
 रंग का और बूटेदार वस्त्र सन मूगा और लालड़ी देकर

- १७ उन्होंने ने तेरा माल लिया । यहूदा और इस्राएल वे तो तेरे ब्योपारी थे उन्होंने ने मिस्त्रीत का गेहूं पन्नग और मधु  
 १८ तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया । तुझ में जो बहुत कारीगरी हुई और सब प्रकार का धन हुआ इस से दमिश्क तेरा ब्योपारी हुआ तरे पास हेलबोन का दाखमधु  
 १९ और उजला ऊन पट्टचाया गया वदान और यावान ने तेरे माल के बदले में सूत दिया और उन के कारण तेरे ब्योपार  
 २० के माल में पालाद तज और बच भी हुआ । चार जामे के योग सुथरं कपड़े के लिये ददान तेरा ब्योपारी हुआ ।  
 २१ अरब और केदार के सब प्रधान तेरे ब्योपारी ठहरे उन्हो ने मन्ने मंढे और बकरे ले आकर तेरे साथ लेन देन किया ।  
 २२ शबा और रामा के ब्योपारी तेरे ब्योपारी ठहरे उन्हो ने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति का मसाला सब भांति  
 २३ के मणि और सोना देकर तेरा माल लिया । हारान कब्र और एदेन और शबा के ब्योपारी और अश्शूर और कल  
 २४ मद ये सब तेरे ब्योपारी ठहरे । इन्हो ने उत्तम उत्तम वस्तुए अर्थात् ओढ़ने के नीले और बूटेदार वस्त्र और डेरियों से बंधी और देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ों की पेटियां ले आकर तेरे साथ लेन देन किया ।  
 २५ तर्शाश के जहाज तेरे ब्योपार के माल के ढोनेहारें हुए उन के द्वारा तू समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान् और प्रताप-  
 २६ वान् हो गई थी । तेरे खेवनेहारों ने तुझे गहिरें जल में पहुंचा दिया है और पुरवाई ने तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है । जिस दिन तू डूब जाएगी उसी दिन तेरा धन संपत्ति ब्योपार का माल मल्लाह मांभी गावनेहारें ब्योपारी लोग और तुझ में जितने सिपाही हैं और तुझ में की सारी  
 २८ भीड़ भाड़ समुद्र के बीच गिर जाएगी । तेरे मांभियों की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आस पास के स्थान कांप  
 २९ उठेंगे । और सब खेवनेहारें और मल्लाह और समुद्र में जितने मांभी रहते हैं वे अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे,  
 ३० वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय ऊंचे शब्द से बिलक बिलक रोएंगे और अपने अपने सिर पर धूलि उड़ाकर  
 ३१ राख में लोटेंगे, और तेरे शोक में अपने सिर मुड़वा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुःख  
 ३२ के साथ तेरे विषय रोए पीटेंगे, वे विलाप करते हुए तेरे विषय विलाप का ऐसा गीत बनाकर गाएंगे कि सोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है उस के तुल्य  
 ३३ कौन नगरी है । जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता था तब तो बहुत सी जातियां के लोग तृप्त होते थे तेरे धन और ब्योपार के माल की बहुतायत से पृथिवी के

राजा धनी होते थे । जिस समय तू अथाह जल में लहरों से टूटी उस समय तेरे ब्योपार का माल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नाश हो गये । टापू टापू के सब रहनेहारें तेरे कारण विस्मित हुए और उन के राजाओं के सब रोए खड़े हो गये और उन के मुख उदास देख पड़े हैं । देश देश के ब्योपारी तेरे विरुद्ध हथौड़ी बजा रहे हैं तू भय का कारण हो गई और फिर कभी रहेगी नहीं ॥

२८. फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के

संतान सोर के प्रधान में कह कि प्रभु यहोवा यों कहता है कि तू ने तो मन में फूलकर कहा है कि मैं ईश्वर हूँ और समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ पर यद्यपि तू अपना मन परमेश्वर का सा दिखाता है तौ भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है । तू तो दानिय्यल से भी अधिक बुद्धिमान् है कोई भी भेद तुझ से लुपान होगा । अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा तू न धन प्राप्त किया और अपने भरडारों में सोना चांदी रक्खी है । तू ने तो बड़ी बुद्धि से लेन देन किया इस से तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है । इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है कि तू जो अपना मन परमेश्वर का सा दिखाता है, इस लिये सुन मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों में से बलात्कारी हैं और वे अपना तलवार तेरी बुद्धि का शाभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक का बिगाड़ेंगे । वे तुझे कयर में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मार हुआ का रोान मर जाएगा । क्या तू अपने घात करनेहार के मांभन कहता रहेगा कि मैं परमेश्वर हूँ । तू अपने घायल करनेहार के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरगा । तू परदेशियों के हाथ से खननाहीन लोगों की रीत से मारा जाएगा क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के संतान सोर के राजा के विषय विलाप का गीत बनाकर उस से कह कि प्रभु यहोवा यों कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है तू बुद्धि से भरपूर और सर्वाङ्ग सुन्दर है । तू तो परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था तेरे आभूषण माणिक पदमराग हीरा फीरोजा सुलमाना मणि यशव नीलमणि मरकस और लाल सब

- भांति के मणि और सोने के ये तरे डफ और बांसुलियां तुम्हीं में बनाई गई थीं जिस दिन तू सिरजा गया था उस
- १४ दिन वे भी तैयार की गई थीं । तू तो छानेहारा अभिषिक्त करूब था मैं ने तुम्हे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था तू आग सरीखे चमकनेहारे
- १५ मणियों के बीच चलता फिरता था । जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुम्हें कुटिलता न पाई गई उस बीच में तो तू अपनी सारी चालचलन में निर्दोष
- १६ रहा । पर लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया इस से मैं ने तुम्हे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और हे छानेहारे करूब मैं ने तुम्हे आग सरीखे चमकनेहारे मणियों के बीच से
- १७ नाश किया है । सुन्दरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी मैं ने तुम्हे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के साम्हने तुम्हें
- १८ रक्खा है कि वे तुम्हें का देखें । तंत्र अधर्म के कामों का बहुतायत से और तंत्र लेन देन की कुटिलता से तंत्र पवित्र-स्थान अपवित्र हो गये सो मैं ने तुम्हें से ऐसी आग उत्पन्न की जिस से तू भस्म हुआ और मैं ने तुम्हे सब देखनेहारों के साम्हने भूमि पर भस्म कर डाला है ।
- १९ देश देश में के लोगों से जितने तुम्हे जानते हैं सब तंत्र कारण विस्मित हुए तू भय का कारण हुआ और तू फिर कभी पाया न जाएगा ॥
- २० फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा
- २१ कि, हे मनुष्य के सन्तान अपना मुख सीदोन की ओर
- २२ करके उस के विरुद्ध नबूवत कर । और कह कि प्रभु यहोवा यों कहता है कि हे सीदोन मैं तेरे विरुद्ध हूं मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा । जब मैं उस के बीच दण्ड दूंगा और उस में अपने का पवित्र ठहराऊंगा
- २३ तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं । और मैं उस में मरी फैलाऊंगा और उस की सड़कों में लोहू बहाऊंगा और उस के चारों ओर तलवार चलेगी तब उस के बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं
- २४ यहोवा हूं । और इस्राएल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उन के साथ अभिमान का बर्ताव रखती हैं उन में से कोई उन का चुभनेहारा कांटा वा बेधने-हारा शूल फिर न ठहरेगी तब वे जान लेंगी कि मैं प्रभु यहोवा हूं ॥
- २५ प्रभु यहोवा यों कहता है कि जब मैं इस्राएल के घराने का उन सब लोगों में से जिन के बीच वे तित्तर बित्तर हुए हैं इकट्ठा करूंगा और देश देश के लोगों के साम्हने उन के द्वारा पवित्र ठहरूंगा तब वे उस देश

में बास करेंगे जो मैं ने अपने दास याकूब का दिया था । वे उस में तब निडर बसे रहेंगे वे घर बनाकर २६ और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे जब मैं उन के चारों ओर के सब लोगों का जो उन से अभिमान का बर्ताव करते हैं दण्ड दूंगा । निदान वे जान लेंगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा ही है ॥

## २९. दसवें बरस के दसवें महीने के बारहवें दिन का यहोवा का

यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के संतान अपना २  
मुख मिस्र के राजा फिरोन की ओर करके उस के ओर  
सारे मिस्र के विरुद्ध नबूवत कर । यह कह कि प्रभु ३  
यहोवा यों कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं हे मिस्र के राजा  
फिरोन हे बड़े नगर तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा  
रहता जिस ने कहा है कि मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ४  
हो ने उस को अपने लिये बनाया है, मैं तो तेरे जभड़ों में  
अंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरे  
चोबों में चिपटाऊंगा और तेरे छिलकों में चिपटी हुई तेरी  
नदियों की सब मछलियों समेत तुम्हें को तेरी नदियों में से ५  
निकालूंगा । तब मैं तुम्हें तेरी नदियों की सारी मछलियों  
समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा  
तेरी किसी प्रकार की सुधि न ली जाएगी मैं ने तुम्हें ६  
बनैले पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर  
दिया है । तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं ७  
यहोवा हूं वे तो इस्राएल के घराने के लिये नरकट की टेक  
ठहरे थें । जब उन्होंने ने तुम्हें पर हाथ का बल दिया तब ८  
तू टूट गया और उन के पखौड़े उखड़ ही गये और जब  
उन्होंने ने तुम्हें पर टेक लगाई तब तू टूट गया और उन  
की कमर की सारी नसें चढ़ गईं । इस कारण प्रभु ९  
यहोवा यों कहता है कि सुन मैं तुम्हें पर तलवार चलवा  
कर तंत्र क्या मनुष्य क्या पशु सभों का नाश करूंगा । तब १०  
मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि  
मैं यहोवा हूं । उस ने तो कहा है कि मेरी नदी मेरी  
निज की है और मैं ही ने उसे बनाया, इस कारण सुन १०  
मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूं और मिस्र देश  
को मिग्दोल से लेकर सबेने लों बरन कूश देश के  
सिवाने लों उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा । चालीस बरस ११  
लों उस में मनुष्य वा पशु का पग तक न पड़ेगा और  
न उस में कोई बसा रहेगा । चालीस बरस तक मैं मिस्र १२  
देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रक्खूंगा

(१) मूल में तू न तो पकड़ा किया जाएगा न बटोरा जाएगा ।

- और उस के नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खएडहर ही रहेंगे और मैं मिस्सियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तित्तर बित्तर करूंगा । प्रभु यहोवा तो यों कहता है कि चालीस बरस के बीते पर मैं मिस्सियों को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा जिन में वे तित्तर बित्तर हुए । और मैं मिस्सियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में जो उन की जन्मभूमि है फिर पहुंचाऊंगा और वहां उन का छोटा सा राज्य हो जाएगा । वह सब राज्यों में से छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा क्योंकि मैं मिस्सियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे फिर अन्य जातियों पर प्रभुता करने न पाएंगे । और वह फिर इस्राएल के घराने के भरोसे का कारण न होगा जो उन के अधर्म की सुधि तब कराता है जब वे फिर कर उन की ओर देखते हैं । वे तो जान लेंगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ ॥
- १७ फिर सताईसवें बरस के पहले महीने के पहिले १८ दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के संतान बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर में सार के घेरने में अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया हर एक का सिर चन्दला हो गया और हर एक के कंधों का चमड़ा उड़ गया तौभी इस बड़े परिश्रम की मजूरी सार से न तो कुल्ल उस को मिली और न उस की सेना को । इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है कि सुन मैं बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्स देश दूंगा और वह उस की भीड़ भाड़ को ले जाएगा और उस की धन संपात्ति को लूटकर अपना कर लेगा सो उस की सेना को यही मजूरी मिलेगी । मैं ने उस के परिश्रम के बदले में उस को मिस्स देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिये काम किया था प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥
- २१ उसी समय मैं इस्राएल के घराने के एक सांग जमाऊंगा और उन के बीच तेरा मुंह खुलाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

- २ ३०. फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के संतान नबूवत करके कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि हाय हाय करा हाय उस दिन पर । क्योंकि वह दिन अर्थात् यहोवा का दिन निकट है वह बादलों का दिन और जातियों के दण्ड का समय होगा । मिस्स में तलवार चलेगी और जब मिस्स में लोग मारे जाकर गिरेंगे तब

कूश में भी संकट पड़ेगा लोंग मिस्स की भीड़ भाड़ ले जाएंगे और उस की नेवें उलट दी जाएंगी । कूश पूत लूद और सब दोगले और कूब लोग और वाचा बाधे हुए देश के निवासी मिस्सियों के संग तलवार से मारे जाएंगे ॥

यहोवा यों कहता है कि मिस्स के संभालनेहारें भी गिर जाएंगे और अपने जिस सामर्थ्य पर मिस्री फूलत हैं सो टूटेगा मिग्दोल से लेकर संधने लों उस के निवासी तलवार से मारे जाएंगे प्रभु यहोवा की यही वाणी है । और वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े ढहरेंगे और उन के नगर खंडहर किये हुए नगरों में गिने जाएंगे । जब मैं मिस्स में आग लगाऊंगा और उस के सब सहायक नाश होंगे तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ । उस समय मेरे साम्हने से दूत जहाजों पर चढ़कर निडर निकलेंगे और कूशियों को डराएंगे और उन पर संकट पड़ेगा जैसा कि मिस्स के दण्ड के समय वह आता तो है ॥

प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से मिस्स की भीड़ भाड़ को नाश करा दूंगा । वह अपनी प्रजा समेत जा सब जातियों में भयानक है उस देश के नाश करने को पहुंचाया जाएगा और वे मिस्स के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मरे हुएओं से भर देंगे । और मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुर लोगों के हाथ कर दूंगा और देश को और जा कुल्ल उस में है मे परदेशियों से उजाड़ करा दूंगा भूक्त यहोवा ही ने यह कहा है ॥

प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं नाप में से भूरतों को नाश करूंगा मैं उस में को भूरतों को रहने न दूंगा मिस्स देश में कोई प्रधान फिर न उठेगा और मैं मिस्स देश में भय उपजाऊंगा । और मैं पत्रास को उजाड़ूंगा और सोअन में आग लगाऊंगा और ना को दण्ड दूंगा । और सीन जो मिस्स का दृढ़ स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और ना की भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा । और मैं मिस्स में आग लगाऊंगा सीन बहुत थरथराएगा और ना फाड़ा जाएगा और नाप के त्वरोधी दिन दहाड़े उठेंगे । आवन और पीवसेत के जवान तलवार से गिरेंगे और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे । और जब मैं मिस्सियों के जूओं को तहप्रहरा में तोड़ूंगा तब उस में दिन को अंधेरा होगा और उस की सामर्थ्य जिस पर वह फूलता है सो नाश

- हा जाएगी उस पर तो घटा छा जाएगा और उस की  
 १९ वेटियां मधुआई में चली जाएगी। मैं मिस्रियों के  
 दण्ड दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहांवा हूँ ॥
- २० फिर ग्यारहवें बरस के पहले महीने के सातवें  
 दिन को यहांवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि,  
 २१ हे मनुष्य के संतान मैं ने मिस्र के राजा फिरौन की  
 भुजा तोड़ी है और न तो वह जुड़ी न उस पर लेप  
 लगाकर पट्टी चढ़ाई गई न वह बांधने से तलवार  
 २२ पकड़ने के लिये बली की गई है। सो प्रभु यहांवा यों  
 कहता है कि मुन मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध  
 हूँ और उस की अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को  
 तोड़गा और तलवार को उस के हाथ से गिराऊंगा।  
 २३ और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तित्तर बित्तर  
 २४ करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा। और मैं बाबेल  
 के राजा की भुजाओं को बली करके अपनी तलवार  
 उस के हाथ में दूंगा और फिरौन की भुजाओं को  
 तोड़ूंगा और वह उस के साम्हने ऐसा कराहेगा जैसा  
 २५ मर्म का घायल कराहता है। मैं बाबेल के राजा की  
 भुजाओं को सम्भालूंगा और फिरौन की भुजाएँ ढीली  
 पड़ेंगी सो जब मैं बाबेल के राजा के हाथ में अपनी  
 तलवार दूंगा और वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा  
 २६ तब वे जानेंगे कि मैं यहांवा हूँ। और मैं मिस्रियों को  
 जाति जाति में तित्तर बित्तर करूंगा और देश देश में  
 छितरा दूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहांवा हूँ ॥

### ३१. फिर ग्यारहवें बरस के तीसरे महीने के पहिले दिन को

- २ यहांवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य  
 के संतान मिस्र के राजा फिरौन और उस की भाँड़  
 भाँड़ से कह कि अपनी बड़ाई में तू किस के समान  
 ३ है। मुन अशशूर तो लबानोन का एक देवदार था  
 जिस की सुन्दर सुन्दर शाखा घनी छाया और बड़ी  
 ऊँचाई थी और उस की फुनगी बादलों तक पहुंचती  
 ४ थी। जल से वह बढ़ गया उस गहरे जल के कारण वह  
 ऊँचा हुआ जिस से नदियां उस के स्थान के चारों  
 ओर बहती थीं और उस की नालियां निकलकर मैदान  
 ५ के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थीं। इस कारण उस की  
 ऊँचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई और उस की  
 टहनियां बहुत हुईं और उस की शाखाएँ लम्बी हो  
 गईं क्योंकि जब वे निकलीं तब उन को बहुत जल  
 ६ मिला। उस की टहनियों में आकाश के सब प्रकार के  
 पक्षी बसेरा करते थे और उस की शाखाओं के नीचे  
 मैदान के सब भाँति के जीवजन्तु जन्मते थे और उस

की छाया में सब बड़ी जातियां रहती थीं। वह अपनी  
 बड़ाई और अपनी डालियों की लम्बाई के कारण  
 सुन्दर हुआ क्योंकि उस की जड़ बहुत जल के निकट  
 थी। परमेश्वर की बारी में के देवदार भी उस को न  
 छिपा सकते थे सनौवर उस की टहनियों के समान न  
 थे और अमोन वृक्ष उस की शाखाओं के तुल्य न थे  
 परमेश्वर की बारी का कोई भी वृक्ष सुन्दरता में उस के  
 बराबर न था। मैं ने उसे डालियों की बहुतायत से  
 सुन्दर बनाया था यहाँ लों कि एदेन के सब वृक्ष जो  
 परमेश्वर की बारी में थे उस से डाह करते थे ॥

इस कारण प्रभु यहांवा ने यों कहा है कि उस  
 की ऊँचाई जो बढ़ गई और उस की फुनगी जो बादलों  
 तक पहुंचती है और अपनी ऊँचाई के कारण उस का  
 मन जो फूल उठा है, सो जातियों में जो सामर्थी है  
 उस के हाथ में उस का कर दूंगा और वह निश्चय उस  
 से बुद्धि व्यवहार करेगा मैं ने उस की दुष्टता के कारण  
 उस को निकाल दिया है। और परदेशी जो जातियों में  
 भयानक लोग हैं उन्हें ने उस को काटकर छोड़ दिया  
 उस की डालियां पहाड़ों पर और सब तराहियों में  
 गिराई गईं और उस की शाखाएँ देश के सब नालों  
 में टूटी पड़ी हैं और जाति जाति के सब लोग उस का  
 छाया को छोड़कर चले गये हैं। उस गिरे हुए वृक्ष पर  
 आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं और उस की  
 शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीवजन्तु चढ़ने पाते हैं,  
 इसलिये कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई  
 अपनी ऊँचाई न बढ़ाए न अपनी फुनगी को बादलों  
 तक पहुंचाए और उन में से जितने जल पाकर बढ़ हो  
 गये हैं सो ऊँच होने के कारण सिर न उठाएँ क्योंकि  
 कबर में गड़े हुआओं के संग मनुष्यों के बीच वे भी सब के  
 सब मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाले जाएंगे ॥

प्रभु यहांवा यों कहता है कि जिस दिन वह  
 अधोलोक में उतर गया उस दिन मैं ने विलाप कराया  
 मैं ने उस के कारण गहिरं समुद्र को ढांपा और नदियों  
 को रोंका बहुत जल रुका रहा और मैं ने उस के कारण  
 लबानोन पर उदासी छा दी और मैदान के सब वृक्ष  
 उस के कारण मूर्छित हुए। जब मैं ने उस को कबर  
 में गड़े हुआओं के पास अधोलोक में फेंक दिया तब मैं ने  
 उस के गिरने के शब्द से जाति जाति को थरथरा दिया  
 और एदेन के सब वृक्षों अर्थात् लबानोन के उत्तम उत्तम  
 वृक्षों ने जितने जल पाते हैं अधोलोक में शांति पाई।  
 वे भी उस के संग तलवार से मारे हुआओं के

पास अधोलोक में उतर गये अर्थात् वे जो उस की भुजा थे और जाति जाति के बीच उस की छाया में रहते थे ॥

१८ सो महिमा और बढ़ाई के विषय एदेन के वृत्तों में से तू किस के समान है तू तो एदेन के और वृत्तों के संग अधोलोक में उतारा जाएगा और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुआओं के संग पड़ा रहेगा । फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यों ही होगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

**३२. फिर** बारहवें बरस के बारहवें महीने के पहिले दिन को यहोवा का

२ यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के सन्तान मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उस को सुना कि तेरी उपमा जाति जाति में जवान सिंह से दी गई थी पर तू समुद्र में के मगर के समान है तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और उन के जल को पांवों से ३ मथकर गदला कर दिया । प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं बहुत सी जातियों की मण्डली के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजाल में ४ खींच लेंगे । तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंककर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारी पृथिवी के जीवजन्तुओं को तू ५ करूंगा । और मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखूंगा और ६ तराइयों को तेरी डील से भर दूंगा । और जिस देश में तू तैरता है उस को पहाड़ों तक तेरे लोहू से सींचूंगा ७ और उस के नाले तुझ से भर जाएंगे । और जिस समय मैं तुझे मलिन करूंगा उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा सूर्य को मैं बादल से ८ छिपाऊंगा और चन्द्रमा अपना प्रकाश न देगा । आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं सब को मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा ९ प्रभु यहोवा की यही वाणी है । जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देशों में फैलाऊंगा तब बड़े बड़े देशों के लोगों के मन में रिस १० उपजाऊगा । और मैं बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित कर दूंगा और जब मैं उन के राजाओं के साम्हने अपनी तलवार भांजंगा तब तेरे कारण उन के सब रोएं खड़े हो जाएंगे और तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राण के लिये क्षण क्षण कांपते रहेंगे ॥

(१) मूल में उन को नदियों की मैला ।

प्रभु यहोवा यों कहता है कि बाबेल के राजा की ११ तलवार तुझ पर चलेगी । मैं तेरी भीड़ भाड़ को ऐसे १२ शूरवीरों की तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब के सब जातियों में भयानक हैं और वे मिस्र के घमण्ड को तोड़ेंगे और उस की सारी भीड़ भाड़ का सत्यानाश होगा । और मैं उस के सब पशुओं को उस के बहुतेरे १३ जलाशयों के तार पर से नाश करूंगा और वे आगे को न तो मनुष्य के पांव में और न पशु के खुरों में गदले किये जाएंगे । तब मैं इन का जल निर्मल कर दूंगा १४ और उन की नदियां तेल की नाईं बहेंगी प्रभु यहोवा की यही वाणी है । जब मैं मिस्र देश को उजाड़ ही १५ उजाड़ कर दूंगा और जिस में वह भरपूर है उस में कृत्खा कर दूंगा और उस के सब रहनेहारों को मारूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ । लोगों के विलाप १६ करने के लिये विलाप का गीत यही है जाति जाति की स्त्रियां इमे गाएंगी मिस्र और उस की सारी भीड़ भाड़ के विषय वे यही विलापगीत गाएंगी प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

फिर बारहवें बरस के ३३ महीने के पन्द्रहवें १७ दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के सन्तान मिस्र की भीड़ भाड़ के लिये १८ हाय हाय कर और उस को प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कबर में गड़े हुआओं के पास अधोलोक में उतार । तू किस से मनोहर है तू उतरकर खतनाहीनों के संग १९ लिटाया जाए । तलवार से मारे हुआओं के बीच वे गिरेंगे २० उन के लिये तलवार ही ठहराई गई है सो मिस्र को सारी भीड़ भाड़ समेत घसीट ले जाओ । सामर्थी २१ शूरवीर उस में और उस के सहायकों से अधोलोक में से बातें करेंगे वहां वे खतनाहीन लोग तलवार से मारे जाकर उतर पड़े हैं । वहां सारी मण्डली समेत अश्शूर २२ भी है उस की कबरें उस के चारों ओर हैं सब के सब तलवार से मारे जाकर गिरे हैं । उस की कबरें गड़हे २३ के कोनों में बनी हुई हैं और उस की कबर के चारों ओर उस की मण्डली है, वे सब के सब जो जीवनलोक में भय उपजाते थे अब तलवार से मारे जाकर पड़े हुए हैं । वहां एलाम है और उस की कबर के चारों ओर २४ उस की सारी भीड़ भाड़ है वे सब के सब तलवार से मारे जाकर गिरे हैं वे खतनाहीन अधोलोक में उतर गये हैं वे जीवनलोक में भय उपजाते थे पर अब कबर में और और गड़े हुआओं के संग उन के मुंह पर सियाही छाई हुई है । सारी भीड़ भाड़ समेत उस को मारे हुआओं २५

(२) मूल में उस ।



के नीचे मेज मिली उस की कबरें उस के चारों ओर वहीं हैं सब के सब खतनाहीन तलवार से मारे गये उन्होंने ने जीवनलोक में तो भय उपजाया था पर अब कबर में और गड़े हुओं के संग उन के मुंह पर सियाही छाई हुई है और वह मारे हुओं के बीच रक्खा गया है । वहां सारी भीड़ भाड़ समेत मेशोक और तूबल हैं उन की कबरें उन के चारों ओर हैं सब के सब खतनाहीन तलवार से मारे गये वे तो जीवनलोक में भय उपजाते थे । क्या वे उन गिरे हुए खतनाहीन शूरवीरो के संग पड़े न रहेंगे जं अपने अपने युद्ध के हथियार लिये हुए अधोलोक में उतर गये हैं और वहां उन की तलवार उन के सिरों के नीचे रक्खी हुई हैं और उन के अधर्म के काम उन की हड्डियों में व्यापे हैं क्योंकि जीवनलोक में उन से शूरवीरों को भी भय उपजाता था । सो खतनाहीनों के संग अंग भंग होकर तू भी तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा । वहां एदोम और उस के राजा और उस के सारे प्रधान हैं जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मारे हुओं के संग वहीं रक्खे हैं गड़हे में गड़े हुए खतनाहीन लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे । वहां उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सारे सीदानी हैं मारे हुओं संग वे भी उतर गये उन्होंने ने अपने पराक्रम से भय उपजाया था पर अब वे लाजित हुए और तलवार से और और मारे हुओं के संग वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं और कबर में और और गड़े हुओं के संग उन के मुंह पर भी सियाही छाई हुई है । इन को देखकर फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ के विषय शांति पाएगा और फिरौन और उस की सारी मेना तलवार से मारी गई है प्रभु यहोवा की यही वाणी है । क्योंकि मैं ने उस के कारण जीवनलोक में भय उपजाया है और वह सारी भीड़ भाड़ समेत तलवार से और मारे हुओं के संग खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

**३३. फिर** यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के संतान

अपने लोगों से कह कि जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग अपने किसी का पहरेदार करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चला चाहती है नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेत जाए और तलवार के चलने से वह मर जाए उस का खून उसी के सिर पड़ेगा । उस ने नरसिंगे का

शब्द तो सुना पर चेत न गया सो उस का खून उसी को लगेगा पर यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता । और यदि पहरेदार यह देखने पर कि तलवार चला चाहती है नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता न दे और तब तलवार के चलने से उन में से कोई मर जाए तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा पर उस के खून का लेखा मैं पहरेदार ही से लूंगा । सो हे मनुष्य के संतान मैं ने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार ठहरा दिया है सो तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर मेरी ओर से उन्हें चिता दे । जब मैं दुष्ट से कहूं कि हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा तब यदि तू दुष्ट को उस के मार्ग के विषय न चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा पर उस के खून का लेखा मैं तुम्हीं से लूंगा । पर यदि तू दुष्ट को उस के मार्ग के विषय चिताए कि अपने मार्ग से फिर जाए और वह अपने मार्ग से न फिर जाए तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा पर तू अपना प्राण बचा लेगा ॥

फिर हे मनुष्य के संतान इस्राएल के घराने से यह कह कि तुम लोग कहते हो कि हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है हम उस के कारण गलते जाते हैं हम जीते कैसे रहें । सो तू उन से यह कह प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सोह मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता पर इस से कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीता रहे हे इस्राएल के घराने तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ तुम क्यों मर जाओ । और हे मनुष्य के संतान अपने लोगों से यह कह कि जिस दिन धर्मी जन अपराध करे उस दिन वह अपने धर्म के कारण न बचेगा और दुष्ट की दुष्टता जो है जिस दिन वह उस से फिर जाए उस के कारण वह न गिर जाएगा फिर धर्मी जन जब वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीता न रहेगा । जब मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीता रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगें तब उस के धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा जो कुटिल काम उस ने किये हों उन्हीं में फंसा हुआ वह मरेगा । फिर जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात् यदि दुष्ट जन बन्धक फेर देने अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर देने और बिना कुटिल काम किये जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तब वह न मरेगा निश्चय जीता रहेगा । जितने पाप उस ने किये हों उन में से किसी का स्मरण न किया जाएगा उस ने

न्याय और धर्म के काम किये वह निश्चय जीता ही  
 १७ रहेगा । तौभी तेरे लोग कहते हैं कि प्रभु की चाल ठीक  
 १८ नहीं पर उन्हीं की चाल ठीक नहीं । जब धर्मी अपने  
 धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे तब उन में फंसा  
 १९ हुआ वह मर जाएगा । और जब दुष्ट अपनी दुष्टता से  
 फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तब वह उन  
 २० के कारण जीता रहेगा । तौभी तुम कहते हो कि प्रभु  
 की चाल ठीक नहीं हे इस्राएल के घराने मैं तुम्हारा  
 न्याय एक एक जन की चाल ही के अनुसार करूंगा ॥

२१ फिर हमारी बन्धुआई के ग्यारहवें बरस के दसवें महीने  
 के पांचवें दिन को एक जन जो यरूशलेम से भागकर  
 बच गया था सो मेरे पास आकर कहने लगा नगर ले  
 २२ लिया गया । उस भागे हुए के आने मे पहिले सांभ के  
 यहोवा की शक्ति<sup>२</sup> मुझ पर हुई थी और मेर लों अर्थात्  
 उस मनुष्य के आने लों उस ने मेरा मुंह खोल दिया सो  
 २३ मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर चुप न रहा । तब  
 २४ यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य  
 के सन्तान इस्राएल की भूमि के उन खण्डहरों के रहने-  
 हारे यह कहते हैं कि इब्राहीम एक ही था तौभी देश  
 का अधिकारी हुआ पर हम लोग बहुत से हैं और देश  
 २५ हमारे ही अधिकार में दिया गया । इस कारण तू उन  
 में कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि तुम लोग तो मांस  
 लोह समेत खाते और अपनी मूरतों की ओर दृष्टि करते  
 और खून करते हो फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी  
 २६ रहने पाओगे । तुम तो अपनी अपनी तलवार पर भरोसा  
 करते और धिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी  
 की स्त्री को अशुद्ध करते हो फिर क्या तुम उस देश के  
 २७ अधिकारी रहने पाओगे । तू उन से यह कह कि प्रभु यहोवा  
 यों कहता है कि मेरे जीवन की सौह निःसंदेह जो लोग  
 खण्डहरों में रहते हैं सो तलवार से गिरेंगे और जो खुले  
 मैदान में रहता है उसे मैं जीवजन्तुओं का आहार कर  
 दूंगा और जो गड्ढों और गुफाओं में रहते हैं सो मरी से  
 २८ मरेंगे । और मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा  
 और उस का अपने बल का घमण्ड जाता रहेगा और  
 इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न  
 २९ चलेगा । सो जब मैं उन लोगों के किये हुए सब धिनौने  
 कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा  
 ३० तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ । और हे मनुष्य के संतान  
 तेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय

(१) मूल में तुम कहते हो कि ।

(२) मूल में हाथ ।

वातें करते और एक दूसरे से कहते हैं कि आओ सुनो  
 तो यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है । वे ३१  
 प्रजा की नाईं तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर  
 तेरे साम्हने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं पर वह उन पर  
 चलते नहीं मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं पर उन  
 का मन लालच ही में लगा रहता है । और तू उन के ३२  
 लेखे मीठे गानेहारे और अच्छे बजानेहारे का प्रेमवाला  
 गीत सा ठहरा है वे तेरे वचन सुनते तो हैं पर उन पर  
 चलते नहीं । पर जब यह बात घटेगी वह घटनेवाली तो ३३  
 है तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक नवी आया था ॥

३४. फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास  
 पहुंचा कि, हे मनुष्य के संतान २

इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध नबूवत करके उन चरवाहों  
 से कह कि प्रभु यहोवा यों कहता है हाय इस्राएल के  
 चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं क्या चरवाहों  
 को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिये । तुम लोग ३  
 चर्बी खाते ऊन पहिनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते  
 हो और भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते । न तो तुम ने ४  
 बीमारों को बलवान् किया न रोगियों को चंगा किया  
 न घायलों के घावों को बांधा न निकाली हुई को फेर  
 लाये न खोई हुई को खोजा पर तुम ने बल और  
 बरबस्ती से अधिकार चलाया है । वे चरवाहे के न होने ५  
 के कारण तित्तर बित्तर हुईं और सब बनैले पशुओं का  
 आहार हो गईं वे तित्तर बित्तर हुईं हैं । मेरी भेड़ ६  
 बकरियां सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती  
 थीं मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथिवी के ऊपर तित्तर बित्तर  
 हुईं और उन की न तो कोई सुधि लेता था न कोई ७  
 उन को ढूंढता था । इस कारण हे चरवाहो यहोवा का ८  
 वचन सुनो । प्रभु यहोवा की यह बाणी है कि मेरे  
 जीवन की सौह मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गईं और  
 मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के न होने के कारण ९  
 सब बनैले पशुओं का आहार हो गईं और मेरे चरवाहो  
 ने जो मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी  
 भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना ही अपना पेट भरा,  
 इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो । प्रभु ९, १०  
 यहोवा यों कहता है कि सुनो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और  
 उन से अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उन को  
 उन्हें फिर चराने न दूंगा सो वे फिर अपना अपना पेट  
 भरने न पाएंगे क्योंकि मैं अपनी भेड़ बकरियां उन के  
 मुंह से छुड़ाऊंगा कि वे आगे को उन का आहार न हों ।  
 और प्रभु यहोवा यों कहता है कि सुनो मैं आप ही ११

- अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें दूँगा ।
- १२ जैसे चरवाहा जब अपनी तित्तर बित्तर हुई भेड़ बकरियों के बीच होना है तब अपने भुँड को बटोरता है वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे बादल और
- १३ घोर अन्धकार के दिन तित्तर बित्तर हो गई हों । और मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूँगा और उन्हीं की निज भूमि पर ले आऊँगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और
- १४ उस देश के सब बसे हुए स्थानों पर चराऊँगा । मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊँगा और इस्राएल के ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर उन को भेड़शाला मिलेगी वहाँ वे अच्छी भेड़शाला में बैठा करेंगी और इस्राएल के पहाड़ों पर
- १५ उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी । मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊँगा
- १६ प्रभु यहोवा की यही वाणी है । मैं खोई हुई को दूँगा और निकाली हुई को फेर लाऊँगा और घायल के घायल बांधंगा और बीमार को बलवान् करूँगा और जो मोटी और बलवन्त है उसे मैं नाश करूँगा मैं उन की चरवाही न्याय से करूँगा ॥
- १७ और हे मेरे भ्रूण्ड तुम से प्रभु यहोवा यों कहता है कि सुनो मैं भेड़ भेड़ के बीच और भेड़ों और बकरों के
- १८ बीच न्याय करता हूँ । अच्छी चराई चर लेनी क्या तुम्हें ऐसी छोट्टी बात जान पड़ती है कि तुम शेष चराई को अपने पांवों से रौंदते हो और निर्मल जल पी लेना क्या तुम्हें ऐसी छोट्टी बात जान पड़ती है कि तुम शेष
- १९ जल को अपने पांवों से गदला करते हो । और मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांवों के गँदे हुए को चरना और
- २० तुम्हारे पांवों के गदले किये हुए को पीना पड़ता है । इस कारण प्रभु यहोवा उन से यों कहता कि सुनो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूँगा ।
- २१ तुम जो सब बीमारों को पांजर और कन्धे मे यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तित्तर
- २२ बित्तर हो जाती हैं, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊँगा और वे फिर न लुटेंगी और मैं भेड़ भेड़
- २३ के बीच और बकरी बकरी के बीच न्याय करूँगा । और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊँगा जो उन की चरवाही करेगा वह मेरा दास दाऊद होगा वही उन को
- २४ चराएगा और वही उन का चरवाहा होगा । और मैं यहोवा उन का परमेश्वर ठहरूँगा और मेरा दास दाऊद उन के बीच प्रधान होगा मुझ यहोवा ही ने यह कहा
- २५ है । और मैं उन के साथ शांति की वाचा बांधूँगा और

दुष्ट जन्तुओं को देश में न रहने दूँगा सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे । और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आस पास के स्थानों को आशिष का कारण कर दूँगा और मेह को ठीक समय में बरसाया करूँगा और आशिषों की वर्षा होगी । और मैदान के वृत्त फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे । जब मैं उन के जूए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊँगा जो उन से सेवा कराते हैं तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ । और वे फिर जाति जाति से न लूटे जाएंगे और न बनैले पशु उन्हें फाड़ खाएंगे वे निडर रहेंगे और उन को कोई न डराएगा । और मैं बड़े नाम के लिये ऐसे भेड़ उपजाऊँगा कि वे देश में फिर भूखें न मरेंगे और न जाति जाति के लोग फिर उन की निन्दा करेंगे । और वे जानेंगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग है और हम जो इस्राएल का घराना हैं सो उस की प्रजा हैं मुझ प्रभु यहोवा की यही वाणी है । तुम तो मेरी भेड़ बकरियाँ मेरी चराई की भेड़ बकरियाँ हो तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

### ३५. फिर यहोवा का यह वचन मेरे

पास पहुँचा कि, हे मनुष्य के संतान अपना मुख सेईर पहाड़ की ओर करके उस के विरुद्ध नव्वत कर । और उस से कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि हे सेईर पहाड़ मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूँगा । मैं तेरे नगरों को खण्डहर कर दूँगा और तू उजाड़ हो जायगा तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ । इस कारण कि तू इस्राएलियों से युग युग की शत्रुता रखता था और उन की विपत्ति के समय जब अधर्म के अंत का समय पहुँचा तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया, इस कारण तुझे प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सोंह खून किये जाने के लिये तुझे मैं तैयार करूँगा खून तेरा पीछा करेगा तू तो खून से न घिनाता था इस कारण खून तेरा पीछा करेगा । इस रीति मैं सेईर पहाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूँगा और जो उस में आता जाता है उस को मैं नाश करूँगा । और मैं उस के पहाड़ों को मारे हुआँ से भर दूँगा तेरे टीलों तराइयों और सब नालों में तलवार से मारे हुए गिरेंगे । मैं तुझे युग युग के लिये उजाड़ कर दूँगा और तेरे नगर न बसेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ । तू ने तो कहा है कि ये दोनों जातियाँ और ये दोनों

(१) मूल में तलवार के हाथों पर सोंप दिया ।

देश मेरे होंगे और हम ही उन के स्वामी होंगे  
 ११ तौभी यहोवा वहां बना रहा, इस कारण प्रभु  
 यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सोह  
 तरे कोप के अनुसार और जो जलजलाहट तू ने उन पर  
 अपने बैर के कारण की है उस के अनुसार मैं बर्ताव  
 करूंगा और जब मैं तेरा न्याय करूंगा तब अपने को  
 १२ उन में प्रगट करूंगा । और तू जानेगा कि सुभ यहोवा  
 ने तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी हैं जो तू ने इस्राएल  
 के पहाड़ों के विषय कही हैं कि वे तो उजड़ गये वे हम ही  
 १३ का दिये गये हैं कि हम उन्हें खा डाले । तुम ने अपने  
 मुंह से मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत  
 १४ बातें कही हैं इसे मैं ने सुना है । प्रभु यहोवा यों कहता  
 है कि जब पृथिवी भर में आनन्द हांगा तब मैं तुम्हें  
 १५ उजाड़ करूंगा । तू तो इस्राएल के घराने के निज भाग  
 के उजाड़ जाने के कारण आनन्दित हुआ और मैं तो  
 तुम्ह से वैसा ही करूंगा हे सेईर पहाड़ हे एदोम के सारे  
 देश तू उजाड़ हो जाएगा और वे जान लेंगे कि मैं  
 यहोवा हूँ ॥

**३६. फिर** हे मनुष्य के सन्तान तू इस्रा-  
 एल के पहाड़ों से नबूवत करके

२ कह हे इस्राएल के पहाड़ो यहोवा का वचन सुनो । प्रभु  
 यहोवा यों कहता है कि शत्रु ने तो तुम्हारे विषय कहा है  
 कि आहा प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधि-  
 ३ कार में आ गये । इस कारण नबूवत करके कह कि  
 प्रभु यहोवा यों कहता है कि लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा  
 और चारों ओर से तुम्हें निगल लिया कि तुम बची हुई  
 जातियों का अधिकार हो जाओ और लुतरे जो तुम्हारी  
 ४ चर्चा और साधारण लोग जो तुम्हारी निन्दा करते हैं, इस  
 कारण हे इस्राएल के पहाड़ो प्रभु यहोवा का वचन सुनो  
 प्रभु यहोवा तुम से यों कहता है अर्थात् पहाड़ों और पहा-  
 ५ ङियों से और नालों और तराइयों और उजड़ हुए खण्ड-  
 हरो और निर्जन नगरों से जो चारों ओर की बची हुई  
 जातियों से लुट गये और उन के हंसने के कारण हो गये,  
 प्रभु यहोवा यों कहता है कि निश्चय मैं ने अपनी जलन  
 की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के  
 विरुद्ध कहा है जिन्होंने अपने मन के पूरे आनन्द और  
 अभिमान से मेरे देश का अपने अधिकार में करने के लिये  
 ६ ठहराया है वह पराया होकर लूटा जाए । इस कारण  
 इस्राएल के देश के विषय नबूवत करके पहाड़ों पहाड़ियों  
 नालों और तराइयों से कह कि प्रभु यहोवा यों कहता है  
 कि सुनो तुम ने तो जातियों की निन्दा सही है इस  
 ७ कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूँ । सो

प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं ने यह किरिया खाई  
 है कि निःसन्देह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं  
 उन का अपनी निन्दा आप सहनी पड़ेगी ॥

और हे इस्राएल के पहाड़ो तुम पर डालियां पनफेंगी  
 और उन के फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिये लगेंगे  
 क्योंकि उस का लोट आना निकट है । और सुनो मैं  
 ९ तुम्हारे पक्ष का हूँ और तुम्हारी ओर कृपादि करूंगा और  
 तुम जोत बोये जाओगे । और मैं तुम पर बहुत मनुष्यों  
 १० अर्थात् इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर  
 फिर बसाये और खण्डहर फिर बनाए जाएंगे । और मैं तुम  
 ११ पर मनुष्य और पशु दोनों का बहुत कर दूंगा और वे  
 बढ़ेंगे और फूलें फलेंगे और मैं तुम का प्राचीन काल का  
 नाइ बसाऊंगा और आरम्भ से अधिक तुम्हारी भलाई  
 करूंगा और तुम जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ । और मैं  
 १२ ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात् मेरी प्रजा इस्राएल तुम  
 पर चले फिरगी और वे तुम्हारे स्वामी होंगे और  
 तुम उन का निज भाग होंगे और वे फिर तुम्हारे  
 कारण निर्वेश न हो जाएंगे । प्रभु यहोवा यों कहता  
 १३ है कि लोग जो तुम से कहा करते हैं कि तू तो मनुष्यों  
 का खानेदारा है और अपने पर बसी हुई जाति निर्वेश  
 कर देता है, इस कारण तू फिर मनुष्यों को न खाएगा  
 १४ और न अपने पर बसी हुई जाति निर्वेश करेगा प्रभु  
 यहोवा की यही वाणी है । और मैं फिर तेरी निन्दा  
 १५ जाति जाति के लोगों से न सुनवाऊंगा और तुम्हें जाति  
 जाति की ओर से नामधराई फिर सहनी न पड़ेगी और  
 तू अपने पर बसी हुई जाति का फिर ठोकर न खिलाएगा  
 प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा  
 कि, हे मनुष्य के सन्तान जब इस्राएल का घराना  
 १७ अपने देश में रहता था तब वे उस का अपने चाल  
 चलन और कामों के द्वारा अशुद्ध करते थे उन के चाल  
 चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ता था ।  
 सो जो खून उन्होंने देश में किया था और देश को  
 १८ अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया था इस के कारण  
 मैं ने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई, और मैं ने  
 १९ उन्हें जाति जाति में तित्तर वित्तर किया और वे देश देश  
 में छितरा गये मैं ने उन के चालचलन और कामों के  
 अनुसार उन को दण्ड दिया । और जब वे उन जातियों  
 २० में जिन में पहुंचाये गये पहुंच गये तब मेरे पवित्र नाम  
 का अपवित्र ठहराया क्योंकि लोग उन के विषय कहने  
 लगे ये यहोवा की प्रजा हैं पर अब उस के देश में

(१) मूल में मैं ने हाथ उठाया है । (२) मूल में उठेगी ।

- २१ निकाले गये हैं । पर मैं ने अपने पवित्र नाम की सुधि<sup>१</sup> ली जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच  
 २२ अपवित्र ठहराया जहां वे गये थे । इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि हे इस्राएल के घराने मैं इस को तुम्हारे निमित्त नहीं पर अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ जिसे तुम ने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गये थे । और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया जिसे तुम ने उन के बीच अपवित्र किया और जब मैं उन की दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ  
 २४ प्रभु यहोवा की यही वाणी है । मैं तुम को जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुम को २५ तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा । और मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे मैं तुम को तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से २६ शुद्ध करूंगा । और मैं तुम को नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उपजाऊंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम को मांस का २७ हृदय दूंगा । और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे २८ नियमों को मानकर उन के अनुसार करोगे । और तुम उस देश में जो मैं ने तुम्हारे पितरों को दिया था बसेगे और मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर २९ ठहरूंगा । और मैं तुम को तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे ३० बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा । और मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण तुम्हारी नामधराई फिर ३१ न होगी । तब तुम अपने बुरे चालचलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और धिनौने कामों के कारण अपने अपने से धिन खाओगे । प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तुम जान लो कि मैं इस में तुम्हारे निमित्त नहीं करता हे इस्राएल के घराने अपने चालचलन के विषय लजाओ और तुम्हारा ३२ मुख काला हो जाए । प्रभु यहोवा यों कहता है कि जब मैं तुम को तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे ३४ खण्डहर फिर बनाये जाएंगे । और तुम्हारा देश जो सब आने जानेहारों के साम्हने उजाड़ है सो उजाड़ होने

(१) मूल में उस पर मैं ने दया की है ।

की सन्ती जोता बोया जाएगा । और लोग कहा करेंगे ३५ यह देश जो उजाड़ था सो एदेन की बारी सा हो गया और जो नगर खण्डहर और उजाड़ हो गये और ढाये गये थे सो गढ़वाले हुए और बसाये गये हैं । तब जो जातियां तुम्हारे आस पास बची रहेंगी सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाये हुए को फिर बनाया और उजाड़ में ३६ ५९ रोपे हैं मुझ यहोवा ही ने यह कहा और करूंगा भी ॥

प्रभु यहोवा यों कहता है कि मेरी बिनती इस्राएल के घराने से फिर की जाएगी कि मैं उन के लिये यह करूँ अर्थात् मैं उन में मनुष्यों की गिनती मेड़ बकरियों की नाई बढ़ाऊंगा । जैसे पवित्र समर्थों की मेड़ बकरियां अर्थात् नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की मेड़ बकरियां अनगिनत हाती हैं वैसे ही जो नगर अब खण्डहर हैं सो अनगिनत मनुष्यों के भुण्डों से भर जाएंगे तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

### ३७. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई

और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और तराई हड्डियों से भरी हुई थी । तब उस ने मुझे उन के ऊपर चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थीं । तब उस ने मुझ से पूछा हे मनुष्य के सन्तान क्या ये हड्डियां जी सकतीं मैं ने कहा हे प्रभु यहोवा तू ही जानता है । तब उस ने मुझ से कहा इन हड्डियों से नबूवत करके कह हे सूखी हड्डियां यहांवा का वचन सुनो । प्रभु यहांवा तुम हड्डियों से यों कहता है कि सुनो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी । और मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुम को चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जीओगी और यह जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ । इस आज्ञा के अनुसार मैं नबूवत करने लगा और नबूवत कर ही रहा था कि आहट आई और भुईं डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई । और मैं देखता रहा कि उन के नसें उपजी और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई पर उन में सांस कुछ न थी । तब उस ने मुझ से कहा हे मनुष्य के सन्तान सांस से नबूवत कर और सांस से नबूवत करके कह हे सांस प्रभु यहांवा यों कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किये हुआ में चल कि ये जी उठें । उस की इस आज्ञा के अनुसार मैं ने ३७

(२) मूल में यहोवा का हाथ । (३) मूल में इन ।

नबूवत की तब सांस उन में आ गई और वे जीकर अपने अपने पावों के बल खड़े हो गये और बहुत बड़ी सेना हो गई ॥

११ फिर उस ने मुझ से कहा हे मनुष्य के संतान ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा हैं वे तो कहते हैं कि हमारी हड्डियां सुख गई और हमारी आशा जाती रही हम पूरी रीति से कट चुके हैं । इस कारण नबूवत करके उन से कह प्रभु यहोवा यां कहता है कि मेरी प्रजा के लोगो सुनो मैं तुम्हारी कबरें खोलकर तुम को उन से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा ।  
१२ सो जब मैं तुम्हारी कबरें खोलूंगा और तुम को उन से निकालूंगा तब हे मेरी प्रजा के लोगो तुम जान लोगो कि मैं यहोवा हूं । और मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जीओगे और तुम को तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा तब तुम जान लोगो कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया है यहोवा की यही वाणी है ॥

१५ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा  
१६ कि, हे मनुष्य के संतान एक लकड़ी लेकर उस पर लिख कि यहूदा की और उस के संगी इस्राएलियों की तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख कि यूसुफ की अर्थात् एप्रैम की और उस के संगी इस्राएलियों की लकड़ी । फिर उन लकड़ियों को एक दूसरी से जाड़कर एक ही कर ले कि वे तैरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाएं । और जब तैरे लोग तुझ से पूछें कि क्या तू हमें न बताएगा कि इन से तेरा क्या अभिप्राय है, तब उन से कहना प्रभु यहोवा यां कहता है कि सुनो मैं यूसुफ की लकड़ी का जो एप्रैम के हाथ में है और इस्राएल के जो गोत्र उस के संगी है उन को ले यहूदा की लकड़ी से जाड़कर उस के साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगी । और जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा वे उन के साम्हने तैरे हाथ में रहें ।  
२१ और तू उन लोगों से कह प्रभु यहोवा यां कहता है कि सुनो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिन में वे चले गये हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उन के निज देश में पहुंचाऊंगा । और मैं उन को उस देश अर्थात् इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सभी का एक ही राजा होगा और वे फिर दो न रहेंगे न फिर दो राज्यों में कभी बंट जाएंगे । और न वे फिर अपनी मूरतों और धिनौने कामों वा अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध करेंगे और मैं उन को उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे निकालकर शुद्ध करूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे और

मैं उन का परमेश्वर हूंगा । और मेरा दास दाऊद उन का राजा होगा सो उन सभी का एक ही चरवाहा होगा और वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मान कर उन के अनुसार चलेंगे । और वे उस देश में रहेंगे जिसे मैं ने अपने दास याकूब को दिया था और जिस में तुम्हारे पुरखा रहते थे और वे और उन के बेटे पोते सदा लों उस में बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा लों उन का प्रधान रहेगा । और मैं उन के साथ शांति की वाचा बांधूंगा वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उन के बीच अपना पवित्रस्थान सदा बनाये रखूंगा । और मेरे निवास का तम्बू उन के ऊपर तना रहेगा और मैं उन का परमेश्वर हूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे । और जब मेरा पवित्रस्थान उन के बीच सदा के लिये रहेगा तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करनेहारा हूं ॥

### ३८. फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास

पहुंचा कि, हे मनुष्य के संतान अपना सुख मागोग देश के गोग की ओर करके जो रोश मेशेक और तुबल का प्रधान है उस के विरुद्ध नबूवत कर । और यह कह कि हे गोग हे रोश मेशेक और तुबल के प्रधान प्रभु यहोवा यां कहता है कि सुन मैं तैरे विरुद्ध हूं । और मैं तुझे धुमा ले आऊंगा और तैरे जभड़ों में आकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तैरी सारी सेना के अर्थात् घोड़ों सवारों का जो सब के सब कवच पहिने हुए हांग एक बड़ी भीड़ का जो फरी और ढाल लिये हुए सबके सब तलवार चलानेहारे होंगे, और उन के संग फारस कूश और पूत का जो सब के सब ढाल लिये और टोप लगाये हांग, और गामेर और उस के सारे दलों का और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तांगर्मा के घराने और उस के सारे दलों का निकालूंगा तैरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे । सो तू तैयार हो जा तू और जितनी भीड़ें तैरे पास इकट्ठी हों अपनी तैयारी करना और तू उन का नाथ बनना । बहुत दिनों के बीते पर तैरी सुधि ली जाएगी और अन्त के वरसों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ हांग और जिस के निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे अर्थात् तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरन्तर उजाड़ रहे हैं पर वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाये जाकर सब के सब

- ९ निडर रहेंगे। और तू चढ़ाई करेगा तू आंभी की नाई आएगा और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों
- १० समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। प्रभु यहोवा यों कहता है कि उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें
- ११ आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति निकालेगा, और तू कहेगा कि मैं बिना शहरपनाह के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं जो सब के सब बिना शहरपनाह और बिना बंदों और पल्लों के बसे हुए हैं, जिस से मैं छीनकर लूटूँ
- १२ कि तू अपना हाथ उन खण्डहरों पर बढ़ाए जो फिर बसाये गये और उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से इकट्ठे हुए और पृथिवी के बीचोंबीच रहते हुए ढोर
- १३ और और सम्पत्ति रखते हैं। शबा और ददान लोग और तर्शाश के ब्योपारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझ से कहेंगे क्या तू लूटने को आता है क्या तू ने धन छीनने सोना चान्दी उठाने ढोर और और सम्पत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपनी कर लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है ॥
- १४ इस कारण हे मनुष्य के सन्तान नबूवत करके गोग से कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी क्या तुम्हें
- १५ इस का समाचार न मिलेगा। और तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से अपने स्थान से आएगा तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सब के सब चोंड़ों पर चढ़े हुए होंगे अर्थात् एक बड़ी भीड़ और बलवन्त
- १६ सेना। और तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा जैसे बादल भूमि पर छा जाता है सो हे गोग अन्त के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझ से अपने देश पर इसलिये चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊंगा तब वे
- १७ मुझे पहिचानें। प्रभु यहोवा यों कहता है कि क्या तू वही नहीं जिस की चर्चा मैं ने प्राचीनकाल में अपने दासों के अर्थात् इस्राएल के उन नबियों के द्वारा की थी जो उन दिनों में बरसों तक यह नबूवत करते गये कि
- १८ यहोवा गोग से इस्राएलियों पर चढ़ाई कराएगा। और जिस दिन इस्राएल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख में प्रगट होगी प्रभु
- १९ यहोवा की यही वाणी है। और मैं ने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निःसन्देह उस दिन इस्राएल

के देश में बड़ा भुईडोल होगा, और मेरे दर्शन से समुद्र २० की मछलियां और आकाश के पक्षी और मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीवजन्तु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सो सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराये जाएंगे और चढ़ाइयां नाश होंगी और सब भीतें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। और प्रभु यहोवा २१ की यह वाणी है कि मैं उस के विरुद्ध तलवार चलाने के लिये अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा हर एक की तलवार उस के भाई के विरुद्ध उठेगी। और मैं उस से २२ मरी और खून के द्वारा मुकद्दमा लड़ूंगा और उस पर और उस के दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उस के पास हों मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गन्धक बरसाऊंगा। और मैं अपने को २३ महान् और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के साम्हने अपने को प्रगट करूंगा और वे जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ ॥

### ३९. फिर

हे मनुष्य के सन्तान गोग के विरुद्ध नबूवत करके यह कह कि हे गोग हे रोश मेशेक और तुबल के प्रधान प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ। और मैं तुम्हें घुमा २ ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुँचाऊंगा। वहां मैं मारकर तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा ३ और तंरी तीरों को तंरे दहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू ४ अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा और मैं तुम्हें भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और बनैले जन्तुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत आएगा क्योंकि मैं ५ ही ने ऐसा कहा है प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहनेहारों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और मैं ७ अपनी प्रजा इस्राएल के बीच अपना नाम प्रगट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ठहरने न दूंगा तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र हूँ। यह घटना हुआ चाहती वह ८ हो जाएगी प्रभु यहोवा की यही वाणी है यह वही दिन है जिस की चर्चा मैं ने की है। और इस्राएल के ९ नगरों के रहनेहारे निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे क्या डाल क्या फरी क्या धनुष क्या तीर क्या लाठी क्या बछें सब को वे सात बरस तक

(१) मूल में पृथिवी की नाभि में।

(२) मूल में तुम्हें।

(३) मूल में गिर जाएंगी।

- १० जलाते रहेंगे । और वे न तो मैदान में लकड़ी बीनेंगे न जंगल में काटेंगे क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे वे अपने लूटनेहारों को लूटेंगे और अपने छीननेहारों से छीनेंगे प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥
- ११ उस समय मैं गोग को इस्राएल के देश में कब्रिस्तान दूंगा वह ताल की पूरब ओर होगा और आने जानेहारों की वह तराई कहनायगी और आने जानेहारों को वहां रुकना पड़ेगा वहां सारी भीड़ भाड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और उस स्थान का नाम
- १२ गोग की भीड़ भाड़ की तराई पड़ेगा । और इस्राएल का घराना उन को सात महीने मिट्टी देता रहेगा कि
- १३ अपने देश को शुद्ध करे । देश के सब लोग मिलकर उन को मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उन का भी बड़ा नाम होगा प्रभु यहोवा की यही
- १४ वाणी है । तब वे मनुष्यों को अलग करेंगे जो निरन्तर इस काम में लगे रहेंगे अर्थात् देश में घूम घामकर आने जानेहारों के संग होकर उन को जो भूमि के ऊपर पड़े रह जाएंगे देश को शुद्ध करने के लिये मिट्टी देंगे और वे सात महीने के बीते पर ढूँढ़ ढूँढ़कर करने लगेंगे ।
- १५ और देश में आने जानेहारों में से जब कोई किसी मनुष्य की हड्डी देखे तब उस के पास एक चिन्ह खड़ा करेगा यह तब ला बना रहेगा जब लों मिट्टी देनेहारे उसे
- १६ गोग की भीड़ भाड़ की तराई में गाड़ न दें । और एक नगर का भी नाम हमोना है पड़ेगा । यों देश शुद्ध किया जाएगा ॥
- १७ फिर हे मनुष्य के संतान प्रभु यहोवा यों कहता है कि भांति भांति के सब पक्षियों और सब बनेले जन्तुओं को आज्ञा दे कि इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिये इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूँ चारों
- १८ दिशा से चतुरो कि तुम मांस खाओ और लोहू पीओ । तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथिवी के प्रधानों का और मेड़ों मेम्नों बकरों बैलों का जो सब के सब बाशान के तैयार किये हुये होंगे उन सब का लोहू पीओगे । और
- १९ मेरे उस भोज की चर्बी जो मैं तुम्हारे लिये करता हूँ तुम खाते खाने अघा जाओगे और उस का लोहू पीते पीते
- २० छूक जाओगे । तुम मेरी मेज पर घोड़ों रथों शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होगे प्रभु यहोवा की
- २१ यही वाणी है । और मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रगट करूंगा और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा
- २२ देख लेंगे । सो उस दिन से आगे को इस्राएल का घराना

(१) अर्थात् भीड़भाड़ ।

जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है । और जाति- २३ जाति के लोग भी जान लेंगे कि इस्राएल का घराना अपने अधर्म के कारण बन्धुआई में गया था उन्होंने ने तो मुझ से विश्वासघात किया था सो मैं ने अपना मुख उन से फेर लिया और उन को उन के बैरियों के वश कर दिया था और वे सब तलवार से मारे गये । मैं ने तो उन २४ की अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उन से बर्ताव करके उन से अपना मुख फेर लिया था ॥

मेा प्रभु यहोवा यों कहता है कि अब मैं याकूब को २५ बन्धुआई से फेर लाऊंगा और इस्राएल के सारे घराने पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिये मुझे जलन होगी । और वे तब अपनी लज्जा उदाएंगे और उन का २६ सारा विश्वासघात जो उन्होंने ने मेरे विरुद्ध किया तब उन पर होगा जब वे अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उन को न डराएगा, जब कि मैं उन को जाति जाति के २७ बीच से फेर लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा और बहुत जातियों का दृष्टि में उन के द्वारा पवित्र ठहरूंगा, तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा २८ परमेश्वर है क्योंकि मैं ने उन को जाति जाति में बन्धुआ करके फिर उन के निज देश में इकट्ठा किया है और मैं उन में से किसी को फिर परदेश में न छोड़ूंगा । और २९ मैं उन से अपना मुंह फिर कभी न फेरूंगा लूंगा क्योंकि मैं ने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उखड़ेला है प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

### ४०. हमारी बन्धुआई के पचीसवें बरस

अर्थात् यरूशलेम नगर के ले लिये जाने के पीछे चौदहवें बरस के पहिले महीने के दसवें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उस ने मुझे वहां पहुंचाया । अपने दर्शनों में परमेश्वर २ ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया जिस पर दक्खिन ओर मानो किसी नगर का आकार था । वह मुझे वहीं ले ३ गया और मैं ने क्या देखा कि पीतल का रूप धरे हुए और हाथ में सन का पीता और मानने का बांस लिये हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है । उम पुरुष ने मुझ में ४ कहा हे मनुष्य के सन्तान अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे क्योंकि तू इसलिये यहां पहुंचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाना और जो कुछ तू देखे सो इस्राएल के घराने को बता ॥

(२) मूल में छिपा

(३) मूल में वहां ।

(४) मूल में छिपा ।

(५) मूल में यहोवा का हाथ ।



५ और भवन के बाहर चारों ओर एक भीत थी और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था जिस की लम्बाई ऐसे छः हाथ की थी जो साधारण हाथों से चौवा चौवा भर अधिक हैं सो उस ने भीत की मोटाई मापकर बांस भर की पाई फिर उस की ऊंचाई भी मापकर बांस भर की पाई । तब वह उस फाटक के पास आया जिस का मुख पूरब ओर था और उस की सीढ़ी पर चढ़ फाटक की दोनों डेवड़ियों की चौड़ाई माप कर बांस बांस भर की पाई । और पहरेवाली कोठरियां बांस भर लम्बी और बांस बांस भर चौड़ी थीं और दो दो कोठरियों का अंतर पांच हाथ का था और फाटक की डेवड़ी जो फाटक के ओसारे के पास भवन की ओर थी सो बांस भर की थी उस ने फाटक का वह ओसारा जो भवन के साम्हने ९ था मापकर बांस भर का पाया । तब उस ने फाटक का ओसारा मापकर आठ हाथ का पाया और उस के खंभे दो दो हाथ के पाये और फाटक का ओसारा भवन के १० साम्हने था । और पूरबी फाटक की दोनों ओर तीन तीन पहरेवाली कोठरियां थीं जो सब एक ही माप की थीं और दोनों ओर के खंभे भी एक ही माप के ११ थे । फिर उस ने फाटक के द्वार की चौड़ाई मापकर दस हाथ की पाई और फाटक की लम्बाई मापकर तेरह हाथ १२ की पाई । और दोनों ओर की पहरेवाली कोठरियों के आगे हाथ भर का स्थान और दोनों ओर की कोठरियां १३ छः छः हाथ की थीं । फिर उस ने फाटक का एक ओर की पहरेवाली कोठरी की छत से लेकर दूसरी ओर की पहरेवाली कोठरी की छत लों मापकर पचीस हाथ की १४ पाई और द्वार साम्हने साम्हने थे । फिर उस ने साठ हाथ के खंभे मापे और आंगन फाटक के आस पास १५ खंभों तक था । और फाटक के बाहरी द्वार के आगे से लेकर उस के भीतरी ओसारे के आगे लों पचास हाथ १६ का अंतर था । और पहरेवाली कोठरियों में और फाटक भीतर चारों ओर कोठरियों के बीच के खंभे के बीच बीच में भिलमिलदार खिड़कियां थीं और खंभों के ओसारे में वैसी ही थीं सो भीतर की चारों ओर खिड़कियां थीं और एक एक खंभे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे ॥ १७ फिर वह मुझे बाहरी आंगन में ले गया और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां और एक फर्श बना १८ हुआ था और फर्श पर तीस कोठरियां बनी थीं । और यह फर्श अर्थात् निचला फर्श फाटकों से लगा हुआ १९ और उन की लम्बाई के अनुसार था । फिर उस ने

निचले फाटक के आगे से लेकर भीतरी आंगन के बाहर के आगे लों माप कर सौ हाथ पाये सो पूरब और उत्तर दोनों ओर ऐसा था । तब बाहरी आंगन के उत्तरमुखी २० फाटक की लम्बाई और चौड़ाई उस ने मापी । और २१ उस की दोनों ओर तीन तीन पहरेवाली कोठरियां थीं और इस के भी खंभों और खंभों के ओसारे की माप पहिले फाटक के अनुसार थी इस की लम्बाई पचास और चौड़ाई पचीस हाथ की थी । और इस की भी २२ खिड़कियों और खंभों के ओसारे और खजूरों की माप पूरबमुखी फाटक की सी थी और इस पर चढ़ने का सात सीढ़ियां थीं और उन के साम्हने इस का खंभों का ओसारा था । और भीतरी आंगन की उत्तर और २३ पूरब ओर इस फाटकों के साम्हने फाटक थे और उस ने फाटक फाटक का बीच मापकर सौ हाथ का पाया । फिर वह मुझे दक्खिन ओर ले गया और दक्खिन ओर २४ एक फाटक था और उस ने इस के खंभे और खंभों का ओसारा मापकर इन की वैसी ही माप पाई । और उन २५ खिड़कियों की नाई इस के भी और इस के खंभों के ओसारों के चारों ओर खिड़कियां थीं और इस की भी लम्बाई पचास और चौड़ाई पचीस हाथ की थी । और २६ इस में भी चढ़ने के लिये सात सीढ़ियां थीं और उन के साम्हने खंभों का ओसारा था और उस के दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे । और दक्खिन २७ ओर भी भीतरी आंगन का एक फाटक था और उस ने दक्खिन ओर के दोनों फाटकों का बीच मापकर सौ हाथ का पाया ॥

फिर वह दक्खिनी फाटक से होकर मुझे भीतरी २८ आंगन में ले गया और उस ने दक्खिनी फाटक का मापकर वैसा ही पाया । अर्थात् इस की भी पहरेवाली २९ कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसा ही थे और इस के भी और इस के खंभों के ओसारे के भी चारों ओर खिड़कियां थीं और इस की लम्बाई पचास और चौड़ाई पचीस हाथ की थी । और इस के भी ३० चारों ओर के खंभों का ओसारा पचीस हाथ लम्बा और पांच हाथ चौड़ा था । और इस का खंभों का ओसारा ३१ बाहरी आंगन की ओर था और इस के भी खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर चढ़ने का आठ सीढ़ियां थीं । फिर वह पुरुष मुझे पूरब की ओर भीतरी ३२ आंगन में ले गया और उस ओर के फाटक का मापकर वैसा ही पाया । और इस की भी पहरेवाली कोठरियां ३३ और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसा ही थे और इस के भी और इस के खंभों के ओसारे के भी चारों

- और खिड़कियां थीं और इस की लम्बाई पचास और  
 ३४ चौड़ाई पचीस हाथ की थी। और इस का भी खंभों  
 का ओसारा बाहरी आंगन की ओर था और इस के भी  
 दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और  
 ३५ इस पर भी चढ़ने का आठ सीढ़ियां थीं। फिर उस पुरुष  
 ने मुझे उत्तरी फाटक के पास ले जाकर उसे मापा और  
 ३६ उस की वैसी ही माप पाई। और उस के भी पहरेवाली  
 कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा था और  
 उस के भी चारों ओर खिड़कियां थीं और उस की भी  
 ३७ लम्बाई पचास और चौड़ाई पचीस हाथ की थी। और  
 उस के भी खंभे बाहरी आंगन की ओर थे और उन पर  
 भी दोनों ओर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और उस में  
 भी चढ़ने का आठ सीढ़ियां थीं ॥
- ३८ फिर फाटकों के पास के खंभों के निकट द्वार समेत  
 ३९ कोठरी थी जहां हॉमबलि धोया जाता था। और हॉम-  
 बलि पापबलि और दोषबलि के पशुओं के बध करने के  
 लिये फाटक के ओसारे के पास उस के दोनों ओर दो  
 ४० देा मंजें थीं। फाटक की एक बाहरी अलंग पर अर्थात्  
 उत्तरी फाटक के द्वार की चढ़ाई पर दो मंजें थीं और  
 उस की दूसरी बाहरी अलंग पर जो फाटक के ओसारे  
 ४१ के पास थीं दो मंजें थीं। फाटक की दोनों अलंगों पर  
 चार चार मंजें थीं जो सब मिलकर आठ मंजें थीं जो बलिपशु  
 ४२ बध करने के लिये थीं। फिर हॉमबलि के लिये तराशे  
 हुए पत्थर की चार मंजें थीं जो डेढ़ डेढ़ हाथ लम्बी डेढ़  
 डेढ़ हाथ चौड़ी और हाथ भर ऊंची थीं उन पर हॉमबलि  
 और मेलबलि के पशुओं को बध करने के हाथधार रक्खे  
 ४३ जाते थे। और भीतर चारों ओर जैवें भर की अंकड़ियां  
 लगी थीं और मंजों पर चढ़ावे का मांस रक्खा हुआ था।  
 ४४ और भीतरी आंगन की उत्तरी फाटक की अलंग के बाहर  
 गानेहारों की कोठरियां थीं जिन के द्वार दक्खिन ओर  
 थे और पूरबी फाटक की अलंग पर एक कोठरी थी जिस  
 ४५ का द्वार उत्तर ओर था। उस ने मुझ से कहा यह कोठरी  
 जिस का द्वार दक्खिन ओर है उन याजकों के लिये है  
 ४६ जो भवन की चौकसी करते हैं। और जिस कोठरी का  
 द्वार उत्तर ओर है सो उन याजकों के लिये है जो वेदी  
 की चौकसी करते हैं ये तो सादांक की सन्तान हैं और  
 लेवीयों में से यहाँवा की सेवा टहल करने को उस के  
 ४७ समीप जाते हैं। फिर उस ने आंगन को मापकर उसे  
 चौकोना अर्थात् सौ हाथ लंबा और सौ हाथ चौड़ा पाया  
 और भवन के साम्हने वेदी थी ॥
- ४८ फिर वह मुझे भवन के ओसारे को ले गया और  
 ओसारे के दोनों ओर के खंभों को मापकर पांच पांच

हाथ का पाया और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई तीन  
 तीन हाथ की थी। ओसारे की लम्बाई बीस हाथ और ४९  
 चौड़ाई ग्यारह हाथ की थी और उस पर चढ़ने को  
 सीढ़ियां थीं और दोनों ओर के खंभों के पास  
 लाठें थीं ॥

४९. फिर वह मुझे मन्दिर के पास ले  
 गया और उस के दोनों ओर  
 के खंभों को मापकर छः छः हाथ चौड़े पाया यह तो  
 तम्ब की चौड़ाई थी। और द्वार की चौड़ाई दस हाथ २  
 की थी और द्वार की दोनों अलंगों पांच पांच हाथ की  
 थी और उस ने मन्दिर की लम्बाई मापकर चात्तीस हाथ  
 की और उस की चौड़ाई बीस हाथ की पाई। तब उस ३  
 ने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा और दो दो  
 हाथ के पाया और द्वार छः हाथ का था और द्वार की  
 चौड़ाई सात हाथ की थी। तब उस ने भीतर के भवन की ४  
 लम्बाई और चौड़ाई मन्दिर के समान मापकर बीस  
 बीस हाथ की पाई और उस ने मुझ से कहा यह तो  
 परमपवित्र स्थान है। फिर उस ने भवन की भीत को ५  
 मापकर छः हाथ की पाया और भवन के आस पास  
 चार चार हाथ की चौड़ी बाहरी कोठरियां थीं। और ६  
 ये बाहरी कोठरियां तिमहली थीं और एक एक महल  
 में तीस तीस कोठरियां थीं और भवन के आस पास  
 जो भीत इसलिये थी कि बाहरी कोठरियां उस के सहारे  
 में हों उसी में कोठरियों का कड़ियां पैटाई हुई थीं और  
 भवन की भीत के सहारे में न थीं। और भवन के आस ७  
 पास जो कोठरियां बाहर थीं उन में से जो ऊपर थीं वे  
 अधिक चौड़ी थीं अर्थात् भवन के आस पास जो कुछ  
 बना था सो जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे  
 वैसे चौड़ा होता गया इस रीति इस घर की चौड़ाई  
 ऊपर की ओर बढ़ी हुई थी और लोग नीचले महल से ८  
 बिचले में होकर उपरले महल को चढ़ जाते थे। फिर  
 मैं ने भवन के आस पास ऊंची भूमि देगी और बाहरी  
 कोठरियों की ऊंचाई जोड़ लों छः हाथ के बांस की ९  
 थी। बाहरी कोठरियों के लिये जो भीत थी सो पांच  
 हाथ मोटी थी और जो रह गया था सो भवन की  
 बाहरी कोठरियों का स्थान था। और बाहरी कोठरियों १०  
 के बीच बीच भवन के आस पास बीस हाथ का अन्तर  
 था। और बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर ११  
 थे जो रह गया था अर्थात् एक द्वार उत्तर और दूसरा  
 दक्खिन ओर था और जो स्थान रह गया  
 उस की चौड़ाई चारों ओर पांच पांच हाथ  
 की थी। फिर जो भवन पच्छिम ओर के भिन्न १२

स्थान के साम्हने था सो उत्तर हाथ चौड़ा था और भवन के आस पास की भीत पांच हाथ मोटी थी और १३ उस की लम्बाई नव्वे हाथ की थी । तब उस ने भवन की लम्बाई मापकर सौ हाथ की पाई और भीतों समेत भिन्न स्थान की भी लम्बाई मापकर सौ हाथ की पाई । १४ और भवन का साम्हना और भिन्न स्थान की पूरबी अलंग सौ सौ हाथ चौड़ी ठहरी ॥

१५ फिर उस ने पीछे के भिन्न स्थान के आगे की भीत की लम्बाई जिस की दोनों ओर छुज्जे थे मापकर सौ हाथ की पाई और भीतरी भवन और आंगन के ओसारे १६ के भी मापा । तब उस ने डेवड़ियों और भिलमिलीदार खिड़कियों और आस पास के तीनों महलों के छुज्जे को मापा जो डेवड़ी के साम्हने थे और चारों ओर उन की तखताबन्दी हुई थी और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों के आस पास सब कहीं १७ तखताबन्दी हुई थी । फिर उस ने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन लों और उस के बाहर भी और आस पास की सारी भीत के भीतर और बाहर भी १८ मापा । और उस में करुव और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि दो दो करुवों के बीच एक एक खजूर का १९ पेड़ था और करुवों के दो दो मुख थे । इस प्रकार से एक एक खजूर के एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था इसी रीति सारे भवन के चारों ओर बना २० था । भूमि से लेकर द्वार के ऊपर लों करुव और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे मन्दिर की भीत इसी भांति २१ बनी हुई थी । भवन के द्वारों के बाजू चौपहल थे और २२ पवित्रस्थान के साम्हने का रूप मन्दिर का सा था । वेदी काठ की बनी थी उस की ऊंचाई तीन हाथ और लम्बाई दो हाथ की थी और उस के कोने और उस का सारा पाट और अलंगें भी काठ की थीं और उस ने मुक्त से २३ कहा यह तो यहोवा के सम्मुख की मंज है । और मन्दिर और पवित्र स्थान के द्वारों के दो दो किवाड़ थे । २४ और एक एक किवाड़ में दो दो दुहरनेवाले पल्ले थे २५ एक एक किवाड़ के लिये दो दो पल्ले । और जैसे मन्दिर की भीतों में करुव और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे वैसे ही उस के किवाड़ों में भी थे और ओसारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरमें २६ थीं । और ओसारे के दोनों ओर भिलमिलीदार खिड़कियां थीं और खजूर के पेड़ खुदे थे और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरमें भी थीं ॥

४२. फिर वह मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया और मुझे उन दो कोठरियों के पास ले गया जो भिन्न स्थान और भवन दोनों के बाहर उन की उत्तर ओर थीं । सौ हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था और चौड़ाई पचास हाथ की थी । भीतरी आंगन के बीस हाथ के अन्तर और बाहरी आंगन के फर्श दोनों के साम्हने तीनों महलों में छुज्जे थे । और कोठरियों के साम्हने भीतर की ओर जानेवाला दस हाथ चौड़ा एक मार्ग था और हाथ भर का एक मार्ग था और कोठरियों के द्वार उत्तर ओर थे । और उपरली कोठरियां छोटी थीं अर्थात् छुज्जों के कारण वे निचली और बिचली कोठरियों से छोटी थीं । क्योंकि वे तिमहली थीं और आंगनों के से उन के खंभे न थे इस कारण उपरली कोठरियां निचली और बिचली कोठरियों से छोटी थीं । और जो भीत कोठरियों के बाहर उन के पास पास थी अर्थात् कोठरियों के साम्हने बाहरी आंगन की ओर थी उस की लम्बाई पचास हाथ की थी । क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां पचास हाथ लम्बी थीं और मन्दिर के साम्हने की अलग सौ हाथ की थी । और इन कोठरियों के नीचे पूरब की ओर मार्ग था जहां लोग बाहरी आंगन से इन में जाते थे । आंगन की भीत की चौड़ाई में पूरब की ओर भिन्न स्थान और भवन दोनों के साम्हने कोठरियां थीं । और उन के साम्हने का मार्ग उत्तरी कोठरियों के मार्ग सा था लम्बाई चौड़ाई निकाम ठंग और द्वाग उन के से थे । और दक्खिनी कोठरियों के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था अर्थात् पूरब की ओर की भीत के साम्हने का जहां लोग उन में नुसतं थे । फिर उस ने मुक्त से कहा ये उत्तरी और दक्खिनी कोठरियां जो भिन्न स्थान के साम्हने हैं सो वे ही पवित्र कोठरियां हैं जिन में यहोवा के समीप जानेवाले याजक परमपवित्र वस्तुएं खाया करेंगे वे परमपवित्र वस्तुएं और अन्नबलि और पापबलि और दोषबलि वहीं रक्खेंगे क्योंकि वह स्थान पवित्र है । जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे तब तब निकलने के समय वे पवित्रस्थान से बाहरी आंगन में यों ही न निकलेंगे अर्थात् वे पहिले अपने सेवा टहल के बख पवित्रस्थान में रख देंगे क्योंकि ये कोठरियां पवित्र हैं तब वे और बख पहिनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे ।

जब वह भीतरी भवन को माप चुका तब मुझे पूरब दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा । उस ने पूरबी अलंग

के मापने के बांस से मापकर पांच सौ बांस का पाया ।  
 १७ उस ने उत्तरी अलंग के मापने के बांस से मापकर पांच  
 १८ सौ बांस का पाया । उस ने दक्खिनी अलंग के मापने  
 १९ के बांस से मापकर पांच सौ बांस का पाया । उस ने  
 पच्छिमी अलंग के घूम उस को मापने के बांस से  
 २० मापकर पांच सौ बांस का पाया । उस ने उस स्थान की  
 चारों अलंगों मापी और उस के चारों ओर भीत थी  
 वह पांच सौ बांस लम्बा और पांस सौ बांस चौड़ा था मगर  
 इसलिये बनी थी कि पवित्र अर्पावत्र अलग अलग रहें ॥

**४३. फिर** वह मुझे उस फाटक के पास  
 ले गया जो पूरवमुखी था ।

२ तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूरव दिशा से आया  
 और उस की वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी  
 ३ हुई और उस के तेज से पृथिवी प्रकाशित हुई । और  
 यह दर्शन उस दर्शन सीमा था जो मैं ने नगर के  
 नाश करने के अति समय देखा था फिर वे दोनों दर्शन  
 उस के समान थे जो मैं ने कवार नदी के तीर पर देखा  
 ४ था । और मैं मुँह के बल गिर पड़ा । तब यहोवा का  
 तेज उरा फाटक से होकर जो पूरवमुखी था भवन में आ  
 ५ गया । और आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में  
 ६ पहुँचाया और यहोवा का तेज भवन में भरा था । तब मैं  
 ने एक जन की सुनी जो भवन में से मुझ से बोल रहा  
 ७ था फिर एक पुरुष मेरे पास खड़ा हुआ । उस ने मुझ से  
 कहा हे मनुष्य के सन्तान यहोवा की यह वाणी है कि यह  
 ८ तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने का स्थान  
 है जहाँ मैं इस्राएल के बीच सदा वास किये रहूँगा  
 और न तो इस्राएल का घराना और न उस के राजा  
 अपने व्यभिचार से वा अपने ऊँचे स्थानों में अपने  
 राजाओं की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध  
 ८ ठहराएँगे । वे तो अपनी डेवही मेरी डेवही के पास  
 और अपने द्वार के बाजू मेरे द्वार के बाजुओं के निकट  
 बनाते थे और मेरे और उन के बीच बल भीत रही थी  
 और उन्होंने ने अपने धिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम  
 अशुद्ध ठहराया इसलिये मैं ने काप करके उन्हें नाश  
 ९ किया । सो अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं  
 की लोथें मेरे सन्मुख से दूर कर दें तब मैं उन के बीच  
 सदा वास किये रहूँगा ॥  
 १० हे मनुष्य के सन्तान तू इस्राएल के घराने को इस  
 भवन का नमूना दिखाए कि वे अपने अधर्म के कामों  
 ११ से लजाएँ फिर वे उस नमूने को मापें । और यदि वे  
 अपने सारे कामों से लजाएँ तो उन्हें इस भवन का

आकार और स्वरूप और इस के बाहर भीतर आने  
 जाने के मार्ग और इस के सब आकार और विधियाँ  
 और नियम बतलाना और उन के साम्हने लिख रखना  
 जिस से वे इस का सारा आकार और इस की सब  
 विधियाँ स्मरण करके उन के अनुसार करें । भवन का १२  
 नियम तो यह है कि पहाड़ की चोटी उस के चारों ओर  
 के सिवाने के भीतर परमपवित्र है देख भवन का नियम  
 यही है ॥

और ऐसे हाथ के लेंबे में जो साधारण हाथ से १३  
 चौवा भर अधिक हो वेदी की माप यह है अर्थात् उस  
 का आधार एक हाथ का और उस की चौड़ाई एक  
 हाथ की और उस के चारों ओर की छोर पर की पट्टी  
 एक चौंच की और यह वेदी का पाया ऐसा हो । और १४  
 इस भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी  
 लों दो हाथ की ऊँचाई रहे और उस की चौड़ाई हाथ  
 भर की हो और छोटी कुर्सी में लेकर बड़ी कुर्सी लों  
 चार हाथ हों और उस की चौड़ाई हाथ भर की हो ।  
 और उपरला भाग चार हाथ ऊँचा हो और वेदी पर १५  
 जलाने के स्थान से चार सींग उपर की ओर निकले  
 हों । और वेदी पर जलाने का स्थान चौकान अर्थात् १६  
 बारह हाथ लम्बा और बारह हाथ चौड़ा हो । और १७  
 निचली कुर्सी चौदह हाथ लम्बी और चौदह चौड़ी हो  
 और उस के चारों ओर की पट्टी आध हाथ की हो  
 और उस का आधार चारों ओर हाथ भर का हो और  
 उस की सीढ़ी उस की पूरव ओर हो ॥

फिर उस ने मुझ से कहा हे मनुष्य के सन्तान १८  
 प्रभु यहोवा ये कहता है कि जिस दिन होमबलि  
 चढ़ाने और लोहू छिड़कने के लिये वेदी बनाई जाए  
 उस दिन की विधियाँ ये ठहरें । अर्थात् लेवीय याजक १९  
 लांग जो सादाँक के सन्तान हैं और मेरी सेवा टहल  
 करने के मेरे समीप रहते हैं उन्हें तू पापबलि के लिये  
 एक बछड़ा देना प्रभु यहोवा की यही वाणी है । तब २०  
 तू उस के लोहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों  
 और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पट्टी  
 पर लगाना इस प्रकार से उस के लिये प्रायश्चित्त करने  
 के द्वारा उस को पवित्र करना । तब पापबलि के बछड़े २१  
 को लेकर भवन के पवित्रस्थान के बाहर ठहराए हुए  
 स्थान में जला देना । और दूसरे दिन एक निर्दोष २२  
 बकरा पापबलि करके चढ़ाना और जैसे वेदी बछड़े के  
 द्वारा पवित्र की जाए वैसे ही वह इस बकरे के द्वारा

२३ भी की जाए । जब तू उसे पवित्र कर चुके तब एक  
 २४ निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढा चढ़ाना । तू इन्हें  
 यहोवा के साम्हने ले आना और याजक लोग उन पर  
 लोन डाल उन्हें यहोवा को होमबलि करके चढ़ाएँ ।  
 २५ सात दिन लौं तू दिन दिन पापबलि के लिये एक बकरा  
 तैयार करना और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष  
 २६ मेढा भी तैयार किया जाए । सात दिन लौं याजक लोग  
 वेदी के लिये प्रायश्चित्त करके उसे शुद्ध करते रहें इसी  
 २७ भांति उस का संस्कार हो । और जब वे दिन समाप्त  
 हों तब आठवें दिन और उस से आगे को याजक लोग  
 तुम्हारे होमबलि और मेलबलि वेदी पर चढ़ाया करें  
 तब मैं तुम से प्रसन्न हूंगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

### ४४. फिर वह मुझे पवित्रस्थान की उस

बाहरी फाटक के पास लौटा  
 २ ले गया जो पूरबमुखी है और वह बन्द था । तब यहोवा  
 ने मुझ से कहा यह फाटक बन्द रहे और खोला न  
 जाए कोई इस से होकर भीतर जाने न पाए क्योंकि  
 ३ इस्राएल का परमेश्वर यहांवा इस से होकर भीतर आया  
 है इस कारण यह बन्द रहे । प्रधान तो प्रधान होने के  
 कारण मेरे साम्हने भोजन करने को वहां बैठेगा यह फाटक  
 ४ के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर  
 निकले । फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे  
 भवन के साम्हने ले गया तब मैं ने देखा कि यहोवा  
 का भवन यहोवा के तेज से भर गया है तब मैं मुंह के  
 ५ बल गिर पड़ा । तब यहोवा ने मुझ से कहा हे मनुष्य  
 के सन्तान ध्यान देकर अपनी आंखों से देख और जो  
 कुछ मैं तुम से अपने भवन की सब विधियों और  
 नियमों के विषय कहूँ सो सब अपने कानों से सुन और  
 भवन के पैठाव और पवित्रस्थान के सब निकालों पर  
 ६ ध्यान दे । और उन बलवाइयों अर्थात् इस्राएल के घराने  
 से कहना प्रभु यहोवा यों कहता है कि हे इस्राएल के  
 ७ घराने अपने सब घिनौने कामों से अब हाथ उठा । जब  
 तुम मेरा भोजन अर्थात् चर्बी और लोहू चढ़ाते थे तब  
 तुम विराने लोगों को जो मन और तन दोनों के खतना-  
 हीन थे मेरे पवित्रस्थान में आने और मेरा भवन  
 अपवित्र करने को ले आते थे और उन्होंने मेरी वाचा  
 को तोड़ दिया जिस से तुम्हारे सब घिनौने काम बढ़ गये ।  
 ८ और तुम ने आप मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की  
 वरन मेरे पवित्रस्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करनेहारे  
 ९ अपने ही लिये ठहराये । प्रभु यहोवा यों कहता है कि  
 इस्राएलियों के बीच जितने विराने लोग हों जो मन

और तन दोनों के खतनाहीन हों उन में से कोई मेरे  
 पवित्रस्थान में न आने पाए । फिर लेवीय लोग जो उस १०  
 समय मुझ से दूर हो गये थे जब इस्राएली लोग मुझे  
 छोड़कर अपनी मूरतों के पीछे भटक गये थे सो अपने  
 अधर्म का भार उठाएंगे । पर वे मेरे पवित्रस्थान में टहलुए ११  
 होकर भवन के फाटकों का पहरा देनेहारे और भवन के  
 टहलुए रहें होमबलि और मेलबलि के पशु वे लोगों के  
 लिये बध करें और उन की सेवा टहल करने को वे उन  
 के साम्हने खड़े हुआ करें । वे तो इस्राएल के घराने की १२  
 सेवा टहल उन की मूरतों के साम्हने करते थे और उन  
 के ठांकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गये  
 थे इस कारण मैं ने उन के विषय किरिया खाई है कि वे  
 अपने अधर्म का भार उठाएँ प्रभु यहोवा की यही वाणी  
 है । सो वे मेरे समीप न आएँ और न मेरे लिये याजक १३  
 का काम करने और न मेरी किसी पवित्र वस्तु वा किसी  
 परमपवित्र वस्तु को छूने पाएँ वे अपनी लज्जा का और  
 जो घिनौने काम उन्होंने किये उन का भार उठाएँ ।  
 तौभी मैं उन्हें भवन में की साँपी हुई वस्तुओं के रक्षक १४  
 ठहराऊंगा उस में सेवा का जितना काम हो और जो  
 कुछ करना हो उस के करनेहारे वे ही हों ॥

फिर लेवीय याजक जो सादोक के सन्तान हैं १५  
 और उन्होंने ने उस समय मेरे पवित्रस्थान की रक्षा की  
 जब इस्राएली मेरे पास से भटक गये थे वे तो मेरी सेवा  
 टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी  
 और लोहू चढ़ाने को मेरे सन्मुख खड़े हुआ करें प्रभु  
 यहोवा की यही वाणी है । वे मेरे पवित्रस्थान में आया १६  
 करें और मेरी भंज के पास मेरी सेवा टहल करने को  
 आएँ और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें । और जब वे १७  
 भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करें तब सन  
 के वस्त्र पहिने हुए जाएँ और जब वे भीतरी आंगन के  
 फाटकों में वा उस के भीतर सेवा टहल करते हों तब  
 कुछ ऊन के वस्त्र न पहिनें । वे सिर पर सन की मुन्दर १८  
 टोपियां पहिने और कमर में सन की जांघियां बांधे हों  
 जिस कपड़े से पसीना होता है उसे वे कमर में न बांधें ।  
 और जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकलें तब १९  
 जो वस्त्र पहिने हुए वे सेवा टहल करते थे उन्हें उतारकर  
 और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहिनें जिस  
 से लोग उन के वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरें । और २०  
 वे न तो सिर मुण्डाएँ और न बाल लम्बे होने दें केवल  
 अपने बाल कटाएँ । और भीतरी आंगन में जाने के २१  
 समय कोई याजक दाखल न पीए । और वे विधवा २२  
 वा छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न लें केवल इस्राएल के

घराने के वंश में से कुंवारी वा ऐसी ही विधवा जो  
 २३ याजक की स्त्री हुई हो ब्याह लें । और वे मेरी प्रजा के  
 पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध अशुद्ध  
 २४ का अन्तर बताया करें । और जब जब कोई मुकद्दमा  
 हो तब तब न्याय करने को वे ही बैठें और मंत्र नियमों  
 के अनुसार वे न्याय करें और मंत्र सब नियम पर्वों के  
 विषय वे मेरी व्यवस्था और विधियां पालन करें और  
 २५ मेरे विश्रामदिनों को पवित्र मानें । और वे किसी  
 मनुष्य की लोथ के पास न जाएं कि अशुद्ध हो जाएं  
 केवल माता पिता बेटे बेटा भाई और ऐसी बहिन को  
 लोथ के कारण जिस का विवाह न हुआ हो वे अशुद्ध  
 २६ हो सकते हैं । और जब वे फिर शुद्ध हो जाएं तब से  
 २७ उन के लिये सात दिन गिने जाएं । और जिस दिन वे  
 पवित्रस्थान अर्थात् भीतरी आंगन में सेवा टहल करने  
 को फिर प्रवेश करें उस दिन अपने लिये पापबलि चढ़ाएं  
 २८ प्रभु यहोवा की यही वाणी है । और उन के एक निज  
 भाग तो होगा अर्थात् उन का भाग मैं ही हूँ तुम उन्हें  
 इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उन की  
 २९ निज हो उन की निज भूमि मैं ही हूँ । वे अन्नबलि  
 पापबलि और दोषबलि खाया करें और इस्राएल में  
 जो वस्तु अर्पण की जाएं वह उन को मिला करें ।  
 ३० और सब प्रकार की सब से पहिली उपज और सब  
 प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ  
 याजकों को मिला करें और नवान्न का पहिला गुंघा हुआ  
 आटा याजक को दिया करना जिस से तुम लोगों के  
 ३१ घर में आशिष हो । जो कुछ अपने आप मरे वा  
 फाड़ा गया हो चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो उस का  
 मांस याजक न खाएँ ॥

**४५. फिर** जब तुम चिट्ठी डालकर देश को  
 बांटो तब देश में से एक भाग  
 पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना । उस की  
 लम्बाई पचीस हजार बांस की और चौड़ाई दस हजार  
 बांस की हो वह भाग अपने चारों ओर के सिवाने लों  
 २ पवित्र ठहरे । उस में से पवित्रस्थान के लिये पांच सौ  
 बांस लम्बी और पांच सौ बांस चौड़ी चौकानी भूमि हो और  
 उस की चारों ओर पचास पचास हाथ चौड़ी भूमि छूटी  
 ३ पड़ी रहे । तो तुम पचीस हजार बांस लम्बी और दस  
 हजार बांस चौड़ी भूमि को मापना और उस में पवित्र-  
 ४ स्थान हो जो परमपवित्र है । वह भाग देश में से पवित्र  
 ठहरे जो याजक पवित्रस्थान की सेवा टहल करें और

(१) मूल में खड़े हुआ ।

यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आएँ उन के  
 लिये वह हो उन के घरों के लिये स्थान और पवित्रस्थान  
 के लिये पवित्र स्थान हो । फिर पचीस हजार बांस लम्बा ५  
 और दस हजार बांस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल  
 करनेहार लेवीयों के लिये बीस कोठरियों के लिये हो ।  
 फिर तुम पवित्र अर्पण किये हुए भाग के पास पांच ६  
 हजार बांस चौड़ी और पचीस हजार बांस लम्बी नगर के  
 लिये विशेष भूमि ठहराना वह इस्राएल के सारे घराने के  
 लिये हो । और प्रधान का निज भाग पवित्र अर्पण किये ७  
 हुए भाग और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर  
 अर्थात् दोनों का पच्छिम और पूरब दिशाओं में दोनों  
 भागों के साम्हने हो और उस की लम्बाई पच्छिम  
 से लेकर पूरब लों उन दो भागों में से किसी एक ८  
 के तुल्य हो । इस्राएल के देश में प्रधान की तो यही निज  
 भूमि हो और मंत्र ठहराये हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर  
 अन्धे न करें पर इस्राएल के घराने को उस के गोत्रों  
 के अनुसार देश मिले ॥

फिर प्रभु यहांवा यों कहता है कि हे इस्राएल ९  
 के प्रधानों उस करो उपद्रव और उत्पात को दूर करो  
 और न्याय और धर्म के काम किया करो मेरी प्रजा  
 के लोगों का निकाल देना छोड़ दो प्रभु यहांवा की  
 यही वाणी है । तुम्हारे पास सच्चा तराजू सच्चा एपा १०  
 सच्चा बत रहें । एपा और बत दोनों एक ही नाप के हों ११  
 अर्थात् दोनों में होमेर का दसवां अंश समाए दोनों की  
 नाप होमेर के लम्बे से हो । और शेकेल बीस गेरा का १२  
 हो और तुम्हारा माने चाहे बीस चाहे पचीस चाहे  
 पन्द्रह शेकेल का हो । तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो १३  
 अर्थात् गेहूं के होमेर से एपा का छठवां अंश और जव  
 के होमेर में से एपा का छठवां अंश देना । और तेल १४  
 का नियत अंश कोर में से बत का दसवां अंश हो कोर  
 तो दस बत अर्थात् एक होमेर के तुल्य है क्योंकि होमेर  
 दस बत का होता है । और इस्राएल की उत्तम उत्तम १५  
 चराइयों में दो दो सौ भेड़ बकरियों में से एक भेड़ वा  
 बकरी दी जाए । ये सब वस्तुएं अन्नबलि होमबलि और  
 मेलबलि के लिये दी जाएं जिस में उन के लिये प्राय-  
 श्चित्त किया जाए प्रभु यहोवा की यही वाणी है ।  
 इस्राएल के प्रधान के लिये देश के सब लोग यह १६  
 भेंट दें । पर्वों नये चांद के दिनों विश्रामदिनों और १७  
 इस्राएल के घराने के सब नियत समयों में होमबलि  
 अन्नबलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो इस्रा-  
 एल के घराने के लिये प्रायश्चित्त करने को वह पापबलि  
 अन्नबलि होमबलि और मेलबलि तैयार करें ॥

१८ प्रभु यहोवा ने यों कहा है कि पहिले महीने के पहले दिन को नृ एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्रस्थान का पवित्र  
 १९ करना । याजक इस पापबलि के लोहू में से कुछ लेकर भवन के चौग्वट के बाजुओं और वेदी की कुर्मा के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के बाजुओं पर  
 २० लगाए । फिर महीने के सातवें दिन को सब भूल में पड़े हुआं और भोलों के लिये यों ही करना इसी प्रकार  
 २१ से भवन के लिये प्रायश्चित्त करना । पहिले महीने के चौदहवें दिन को नृम लोगों का फसह हुआ करे वह सात दिन का पर्व हो उस में अखमीरी रोटी खाई  
 २२ जाए । और उसी दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोंगों के निमित्त एक बछड़ा पापबलि के लिये तैयार  
 २३ करे । और सातों दिन वह यहोवा के लिये होमबलि तैयार करे अर्थात् एक एक दिन सात सात निर्दोष बछड़े और सात सात निर्दोष भेड़े और दिन दिन एक  
 २४ एक बकरा पापबलि के लिये तैयार करे, और बछड़े और भेड़े पीछे वह एपा भर अन्नबलि और एपा पीछे  
 २५ हीन भर तेल तैयार करे । सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन से लेकर सात दिन लों अर्थात् पर्व के दिनों में वह पापबलि होमबलि अन्नबलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करे ॥

**४६. प्रभु** यहोवा यों कहता है कि भीतरी

आंगन का पूरवमुखी फाटक काम काज के छत्रों दिन बन्द रहे पर विश्रामदिन को खुला रहे । और नये चांद के दिन भी खुला रहे और प्रधान बाहर से फाटक के आंसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक बाजू के पास खड़ा हो जाए और याजक उस का होमबलि और मेलबलि तैयार करे और वह फाटक की डेवड़ी पर दण्डवत् करे तब वह बाहर जाए और फाटक सांभ से पहिले बन्द न किया  
 ३ जाए । और लोग विश्राम और नये चांद के दिनों में उस फाटक के द्वार में यहोवा के साम्हने दण्डवत् करे ।  
 ४ और जो होमबलि प्रधान विश्रामदिन में यहोवा के लिये चढ़ाए सो भेड़ के छः निर्दोष बच्चों का और एक निर्दोष  
 ५ भेड़े का हो । और अन्नबलि यह हो अर्थात् भेड़े पीछे एपा भर अन्न और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न  
 ६ और एपा पीछे हीन भर तेल । और नये चांद के दिन वह एक निर्दोष बछड़ा और भेड़ के छः बच्चे और एक  
 ७ भेड़ा चढ़ाए ये सब निर्दोष हों । और बछड़े और भेड़े दोनों के साथ वह एक एक एपा अन्नबलि तैयार करे और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा  
 ८ पीछे हीन भर तेल । और जब प्रधान भीतर जाए तब

वह फाटक के आंसारे से होकर जाए और उसी मार्ग से निकल जाए । पर जब साधारण लोंग नियत समयों में यहोवा के साम्हने दण्डवत् करने आए तब जो उत्तरी फाटक से होकर दण्डवत् करने का भीतर आए सो दक्खिनी फाटक से होकर निकले और जो दक्खिनी फाटक से होकर भीतर आए सो उत्तरी फाटक से होकर निकले अर्थात् जो जिस फाटक से भीतर आया हो सो उसी फाटक से न लौटे अपने साम्हने ही निकल जाए । और जब वे भीतर आए तब प्रधान उन के बीच होकर आए और जब वे निकले तब वे एक साथ निकले । और पर्वों और और नियत समयों में का अन्नबलि बछड़े पीछे एपा भर और भेड़े पीछे एपा भर का हो और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति का और एपा पीछे हीन भर तेल । फिर जब प्रधान होमबलि वा मेलबलि का स्वेच्छाबलि करके यहोवा के लिये तैयार करे तब पूरवमुखी फाटक उस के लिये खोला जाए और वह अपना होमबलि वा मेलबलि वैसे ही तैयार करे जैसे वह विश्रामदिन का करता है तब वह निकले और उस के निकलने के पीछे फाटक बन्द किया जाए । और नृ दिन दिन बरस भर का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होमबलि के लिये तैयार करना यह भोर भोर को तैयार किया जाए । और भोर भोर को उस के साथ एक अन्नबलि तैयार करना अर्थात् एपा का छठवां अंश और मैदा में मिलाने के लिये हीन भर तेल की तिहाई यहोवा के लिये सदा का अन्नबलि नित्य विधि के अनुसार बढ़ाया जाए । भेड़ का बच्चा अन्नबलि और तेल भोर भोर को नित्य होमबलि करके चढ़ाया जाए ॥

प्रभु यहोवा यों कहता है कि यदि प्रधान अपने किसी पुत्र का कुछ दे तो वह उस का भाग होकर पोतों का भी मिले भाग के नियम के अनुसार वह उन का भी निज धन ठहरे । पर यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे तो वह लुट्टी के बरस लों तो उस का बना रहे पीछे प्रधान को लौटा दिया जाए और उस का निज भाग उस के पुत्रों को मिले । और प्रधान प्रजा का कोई भाग ऐसा न ले कि अन्धेर से उन की निज भूमि छीन ले वह अपने पुत्रों को अपनी ही निज भूमि में से भाग दे ऐसा न हो कि मरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तित्तर वित्तर हो जाएं ॥

फिर वह मुझे फाटक की एक अलंग में के द्वार से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र काठारियों में ले गया और पच्छिम और के कोनों में एक स्थान था । तब उस ने मुझ से कहा यह वह स्थान है जिस में याजक

लोग दोपबलि और पापबलि के मांस को सिभाएं और  
 अन्नबलि को पकाएं न हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले  
 २१ जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरें । तब उस ने मुझे  
 बाहरी आंगन में ले जाकर उस आंगन के चारों कोनों में  
 २२ फिराया और आंगन के एक एक कोने में एक एक आंटा  
 बना था । अर्थात् आंगन के चारों कोनों में चालीस  
 हाथ लम्बे और तीस हाथ चौड़े ओटे थें चारों कोनों के  
 २३ ओटों की एक ही माप थी । और चारों ओर के भीतर  
 चारों ओर भीत थी और चारों ओर की भीतों के  
 २४ नीचे सिभाने के चूल्हे बने हुए थे । तब उस ने मुझ से  
 कहा सिभाने के घर जहां भवन के टहलुए लोगों के  
 बलिदानों के सिभाएं मेा ये ही हैं ॥

**४७. फिर** वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा  
 ले गया और भवन की डेवड़ी

के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब और बह रहा था  
 भवन का द्वार तो पूरबमुखी था और सोता भवन के  
 २ पूरब और बंदी के दक्षिण नीचे से निकलता था । तब  
 वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और  
 बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात् पूरबमुखी  
 ३ फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी अलंग से जल  
 पर्साजकर बह रहा था । जब वह पुरुष हाथ में मापने  
 की डोरी लिये हुए पूरब ओर निकला तब उस ने भवन  
 से लेकर हजार हाथ तक उस माप को मापा और मुझ  
 ४ से उसे पार कराया और जल टखनों तक था । फिर वह  
 हजार हाथ मापकर मुझ से पार कराया और जल बुटनों  
 तक था फिर हजार हाथ मापकर मुझ से पार कराया  
 ५ और जल कमर तक था । फिर उस ने एक हजार हाथ  
 मापे तो ऐसी नदी हो गई थी जिस के पार में न जा  
 सका क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था अर्थात् ऐसी  
 नदी थी जिस के पार कोई न जा सके ॥

६ तब उस ने मुझ से पूछा कि हे मनुष्य के सन्तान  
 क्या तू ने यह देखा है फिर मुझे नदी के तीर लौटाकर  
 ७ पहुंचा दिया । लौटकर मैं ने क्या देखा कि नदी के दोनों  
 ८ तीरों पर बहुत ही वृक्ष हैं । तब उस ने मुझ से कहा  
 यह सोता पूरबी देश की ओर बह रहा है और अराया में  
 उतर कर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला  
 हुआ सोता ताल में मिल जाएगा और उस का जल  
 ९ मीठा हो जाएगा । और जहां जहां यह नदी बह वहां  
 वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देनेवाले जीवजन्तु जीएंगे

और मछलियां बहुत ही हो जाएंगी क्योंकि इस  
 सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो  
 जाएगा और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब  
 जन्तु जीएंगे । और ताल के तीर पर मछुवे खड़े रहेंगे १०  
 एनगदी से लेकर ऐनेग्लैम लों जाल फैलाए जाएंगे और  
 मछुवों को भांति भांति की और महासागर की सी अन- ११  
 गिनित मछलियां मिलेंगी । पर ताल के पास जो दल-  
 दल और गड़हे हैं उन का जल मीठा न होगा वे खारे  
 ही खारे रहेंगे । और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति १२  
 के खाने योग्य फलवाइ वृक्ष उपजेंगे जिन के पत्ते न मुर्भा-  
 एंगे और उन का फलना कभी बन्द न होगा नदी का  
 जल जो पवित्र स्थान से निकला है इस कारण उन में  
 महीने महीने नये नये फल लगेंगे उन के फल तो खाने  
 के और पत्ते औषधि के काम आएंगे ॥

प्रभु यहोवा यों कहता है कि जिस सिवाने के भीतर १३  
 भीतर तुम को यह देश अपने बाहरी गोत्रों के अनुसार  
 बांटना पड़ेगा सो यह है । यूसुक को दो भाग मिलें । और १४  
 उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पावोगे क्योंकि  
 मैं ने किरिया खाई कि तुम्हारे पितरों को दंगा सो यह  
 देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा । देश का सिवाना यह हो १५  
 अर्थात् उत्तर ओर का सिवाना महासागर से लेकर हेत-  
 लोन के पास से सदाद की घाटी लों पहुंचे और उम सिवाने १६  
 के पास हमत बेरोता और सिब्रम हो जो दमिश्क और  
 हमत के सिवानों के बीच में है और हसर्हत्तीकोन जो  
 हीरान के सिवाने पर है । और सिवाना समुद्र से लेकर १७  
 दमिश्क के सिवाने के पास के हसरेनोन तक पहुंचे और  
 उस की उत्तर ओर हमत का सिवाना हो उत्तर का  
 सिवाना तो यही हो । और पूरबी सिब १। जिस की एक १८  
 ओर हीरान दमिश्क और गिलाद और दूसरी ओर  
 इस्राएल का देश हो सो यर्दन हो उत्तरी सिवाने से  
 लेकर पूरबी ताल लों उसे मापना पूरब का सिवाना तो १९  
 यही हो । और दक्षिणी सिवाना तामार से लेकर  
 कादेश के मरीथोत नाम सोते तक अर्थात् सिब ० नाले २०  
 तक और महासागर लों पहुंचे दक्षिणी सिवाना यही  
 हो । और पच्छिमी सिवाना दक्षिणी सिवाने से लेकर २०  
 हमत की घाटी के सामने लों का महासागर हो पच्छिमी  
 सिवाना यही हो । इस देश का इस्राएल के गोत्रों २१  
 के अनुसार आपस में बांट लेना । और इन के आपस २२  
 में और उन परदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हारे बीच  
 रहते हुए बालकों का जन्माएं वे तुम्हारे लेख देशी

(१) मूल में पांति । (२) मूल में पांतियों ।

(३) मूल में दो नदियां ।

(४) मूल में मैं ने हाथ उठाया था ।



इसाएलियों की नाईं ठहरें और तुम्हारे गोत्रों के बीच २३ अपना अपना भाग पाएं । अर्थात् जो परदेशी जिस गोत्र के देश में रहता है वही उस का भाग देना प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

## ४८. गोत्रों के भाग<sup>१</sup> ये हों । उत्तर सिवाने से लगा हुआ हैत-

- १ लोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी लों और दमिश्क के सिवाने के पास के हसरेनान से उत्तर और हमात के पास तक एक भाग दान का हो और उस के पूरबी और पश्चिमी २ सिवाने भी हों । और दान के सिवाने से लगा हुआ ३ पूरब से पश्चिम लों आशेर का एक भाग हो । और आशेर के सिवाने से लगा हुआ पूरब से पश्चिम लों ४ नसाली का एक भाग हो । और नसाली के सिवाने से लगा हुआ पूरब से पश्चिम लों मनश्शे का एक भाग । ५ और मनश्शे के सिवाने से लगा हुआ पूरब से पच्छिम ६ लों एप्रैम का एक भाग हो । और एप्रैम के सिवाने से लगा हुआ पूरब से पच्छिम लों रूबेन का एक भाग ७ हो । और रूबेन के सिवाने से लगा हुआ पूरब से पच्छिम लों यहूदा का एक भाग हो ॥
- ८ और यहूदा के सिवाने से लगा हुआ पूरब से पच्छिम लों वह अर्पण किया हुआ भाग हो जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा वह पचीस हजार बांस चौड़ा और पूरब से पच्छिम लों किसी एक गोत्र के भाग के तुल्य ९ लम्बा हो और उस के बीच में पवित्रस्थान हो । जो भाग तुम्हें यहाया का अर्पण करना होगा उस की लम्बाई पचीस हजार बांस और चौड़ाई दश हजार बांस की हो ।
- १० और यह अर्पण किया हुआ पवित्रभाग याजकों के मिने वह उत्तर और पचीस हजार बांस लम्बा पच्छिम और दस हजार बांस चौड़ा और पूरब और दस हजार बांस चौड़ा दक्खिन और पचास हजार बांस लम्बा हो और ११ उस के बीचोबीच यहोवा का पवित्रस्थान हो । यह विशेष पवित्र भाग सादोक की सन्तान के उन याजकों का हो जो मेरी आशाओं के पालते रहे और इसाएलियों के भटक जाने १२ के समय लेवीयों की नाईं भटक न गये थे । सो देश के अर्पण किये हुए भाग में से यह उन के लिये अर्पण किया हुआ भाग अर्थात् परमपवित्र देश ठहरें और लेवीयों के १३ सिवाने से लगा रहे । और याजकों के सिवाने से लगा हुआ लेवीयों का भाग हो वह पचीस हजार बांस लम्बा और दस हजार बांस चौड़ा हो सारी लम्बाई पचीस हजार

बांस की और चौड़ाई दस हजार बांस की हो । और वे १४ उस में से न तो कुछ बेचें न दूसरी भूमि से बदलें और न भूमि की पहिली उपज और किसी को दी जाए क्योंकि वह यहोवा के लिये पवित्र है । और चौड़ाई के पचीस हजार १५ बांस के साम्हने जो पांच हजार बचा रहेगा सो नगर और बस्ती और चराई के लिये साधारण भाग हो और नगर उस के बीच हो । और नगर की यह माप हो अर्थात् उत्तर १६ दक्खिन पूरब और पच्छिम और साढ़े चार चार हजार बांस । और नगर के पास चराइयां हों उत्तर दक्खिन १७ पूरब पच्छिम और अढ़ाई अढ़ाई सौ बांस चौड़ी हों । और १८ अर्पण किये हुए पवित्र भाग के गल की लंबाई में से जो कुछ बचे अर्थात् पूरब और पच्छिम दोनों ओर दस दस बांस जो अर्पण किये हुए भाग के पास हो उस की उपज नगर में परिश्रम करनेहारों के खाने के लिये हो । और १९ इसाएल के सारे गोत्रों में से जो जो नगर में परिश्रम करें सो उस की खेती किया करें । सारा अर्पण किया हुआ २० भाग पचीस हजार बांस लम्बा और पचीस हजार बांस चौड़ा हो तुम्हें चौकोना पवित्र भाग जिस में नगर की विशेष भूमि हो अर्पण करना होगा । और जो भाग रह जाए २१ सो प्रधान के मिले अर्थात् पवित्र अर्पण किये हुए भाग की और नगर की विशेष भूमि की दोनों और अर्थात् उन की पूरब और पच्छिम अल्लों के पचीस पचीस हजार बांस की चौड़ाई के पास और गोत्रों के भागों के पास जो भाग रहे सो प्रधान के मिले और अर्पण किया हुआ पवित्र भाग और भवन का पवित्रस्थान उन के बीच हो । और प्रधान का भाग जो होगा उस के बीच २२ लेवीयों और नगरों का विशेष भूमि हो और प्रधान का भाग यहूदा और बिन्यामीन के सिवाने के बीच हो ॥

अब और गोत्रों के भाग पूरब से पच्छिम लों बिन्या- २३ मीन का एक भाग हो । और बिन्यामीन के सिवाने से २४ लगा हुआ पूरब से पच्छिम लों शिमान का एक भाग हो । और शिमान के सिवाने से लगा हुआ पूरब से २५ पच्छिम लों इसाकार का एक भाग हो । और इसाकार २६ के सिवाने से लगा हुआ पूरब से पच्छिम लों जबूलून का एक भाग हो । और जबूलून के सिवाने से लगा हुआ २७ पूरब से पच्छिम लों गाद का एक भाग हो । और गाद २८ के सिवाने के पास दक्खिन और का सिवाना तामार से लेकर कादेश के मर्राबोत नाम से ते तक और मिस्र के नाले और महासागर लों पहुँचे । जो देश तुम्हें इसाएल के २९ गोत्रों को बांट देना होगा सो यही है और उन के भाग ये ही हैं प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

(१) मूल में नाम ।

३० फिर नगर के निकास ये हों अर्थात् उत्तर की अलङ्ग जिस की लम्बाई साढ़े चार हजार बांस की हो,  
 ३१ उस में तीन फाटक हों अर्थात् एक रुबेन का फाटक एक यहूदा का फाटक और एक लेवी का फाटक हो क्योंकि नगर के फाटकों के नाम इस्राएल के गोत्रों के नामों पर  
 ३२ रखने होंगे । और पूरब की अलङ्ग साढ़े चार-हजार बांस लम्बी हो और उस में तीन फाटक हों अर्थात् एक यूसुफ का फाटक एक बिन्यामीन का फाटक और एक दान  
 ३३ का फाटक हो । और दक्खिन की अलङ्ग साढ़े चार

हजार बांस लम्बी हो और उस में तीन फाटक हों अर्थात् एक शिमोन का फाटक एक इस्साकार का फाटक और एक जबूलून का फाटक हो । और पच्छिम की अलङ्ग ३४ साढ़े चार हजार बांस लम्बी हो और उस में तीन फाटक हों अर्थात् एक गाद का फाटक एक आशेर का फाटक और नताली का फाटक हो । नगर की चारों अलङ्गों ३५ का घेरा अठारह हजार बांस का हो और उस दिन से आग के नगर का यह नाम यहोवा शाम्मा<sup>१</sup> रहेगा ॥

(१ अर्थात् यहोवा वहां है ।

## दानिय्येल नाम पुस्तक

१. यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे बरस में बाबेल के राजा नबू-कदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उस को घेर  
 २ लिया । तब प्रभु ने यहूदा के राजा यहोयाकीम और परमेश्वर के भवन के कितने एक पात्रों को उस के हाथ में कर दिया और उस ने उन पात्रों को शिनार देश अपने देवता के मन्दिर में ले जाकर अपने देवता के भण्डार में  
 ३ रख दिया । तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज का आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और  
 ४ प्रतिष्ठित पुरुषों में से, ऐसे कई जवानों को ले आकर जो बिन खोट सुन्दर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान् और राजमन्दिर में हाजिर रहने के योग्य हों कसदियों के शास्त्र और भाषा  
 ५ सिखवा दे । और राजा ने आज्ञा दी कि मेरे भोजन और मेरे पीने के दाखमधु में से उन्हें दिन दिन खाने पीने का दिया जाए और तीन बरस लों उन का पालन पोषण होता रहे फिर उस के पीछे वे मेरे साम्हने हाजिर  
 ६ किये जाएं । सो इन में से दानिय्येल हनन्याह मीशाएल और अजर्याह नाम यहूदी थे । और खोजों के प्रधान ने उन के दूसरे नाम रखे अर्थात् दानिय्येल का नाम उस ने बेलतशस्सर और हनन्याह का शद्रक और मीशाएल का मेशक और अजर्याह का अबेदनगो नाम रक्खा । दानिय्येल ने अपने मन में ठाना कि मैं राजा का भोजन खाकर और उस के पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होऊं सो उस ने खोजों के प्रधान से बिनती की कि मुझे अपवित्र

होना न पड़े । परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में ९ दानिय्येल पर कृपा और दया बहुत उपजाई । सो खोजों १० के प्रधान ने दानिय्येल से कहा मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है वह तुम्हारे मुंह तुम्हारी जोड़ी के जवानों से उतरा हुआ क्यों देखे तुम मेरा सिर राजा के साम्हने जोखिम में डालोगे । तब दानिय्येल ने उस मुखिये से जिस को खोजों ११ के प्रधान ने दानिय्येल हनन्याह मीशाएल और अजर्याह के ऊपर ठहराया था कहा, अपने दासों को दस दिन १२ लों जांच हमारे खाने के लिये सागपात और पीने के लिये पानी दिया जाए । फिर उस दिन के पीछे हमारे १३ मुंह को और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उन के मुंह को देख और जैसा तुम्हें देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना । उन की यह बिनती उस १४ ने मान ली और दस दिन लों उन को जांचता रहा । दस दिन के पीछे उन के मुंह राजा के भोजन के खानेहारे १५ सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े । सो १६ वह मुखिया उन का भोजन और उन के पीने के लिये ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उन को साग पात देने लगा । और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब १७ शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धि और प्रवीणता दी और दानिय्येल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का जानकार हो गया । सो जितने दिन १८ नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी उतने दिन बीतने पर खोजों का प्रधान

१९ उन्हें उस के सामने ले गया, और राजा उन से बात-  
चीत करने लगा तब दानिय्येल इनन्याह मीशाएल  
और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा सो  
२० वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे । और बुद्धि और  
समझ के जिस किसी विषय में राजा उन से पूछता उस  
में वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तन्त्रियों से दस-  
२१ गुणो और निपुण ठहरते थे । और दानिय्येल कुसू राजा  
के पहिले बरस लों बना रहा ॥

## २. अपने राज्य के दूसरे बरस में

नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न  
देखा जिस से उस का मन बहुत ही व्याकुल हो गया और  
२ उस को नींद न आई । तब राजा ने आज्ञा दी कि  
ज्योतिषी तन्त्री टोनहें और कसदी बुलाये जाएं कि वे  
राजा को उस का स्वप्न बताएं सो वे आकर राजा के  
३ साम्हने हाजिर हुए । तब राजा ने उन से कहा मैं ने  
एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न  
४ को कैसे समझूं । कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में  
कहा हे राजा तू सदा लों जीता रहे अपने दासों को  
५ स्वप्न बता और हम उस का फल बताएंगे । राजा ने  
कसदियों को उत्तर दिया यह बात मेरे मुख से निकली  
कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओ तो तुम  
डुकड़े डुकड़े किये जाओगे और तुम्हारे घर धूरे बनाये  
६ जाएंगे । और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बताओ तो  
मुझ से भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे  
७ इसलिये मुझे फल समेत स्वप्न को बताओ । उन्हों  
ने दूसरी बार कहा हे राजा स्वप्न तेरे दासों को  
बताया जाए और हम उस का फल समझा देंगे ।  
८ राजा ने उत्तर दिया मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह  
देखकर कि आज्ञा राजा के मुंह से निकल चुकी समय  
९ बढ़ाना चाहते हो । सो यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ  
तो तुम्हारे लिये एक ही आज्ञा है क्योंकि तुम ने एका  
किया होगा कि जब लों समय न बदले तब लों हम  
राजा के साम्हने भूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे  
इसलिये मुझे स्वप्न को बताओ तब मैं जानूंगा कि तुम  
१० उस का फल भी समझा सकते हो । कसदियों ने राजा  
से कहा पृथिवी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो राजा  
के मन की बात बता सके और न कोई ऐसा राजा वा  
प्रधान वा हाकिम कभो हुआ जिस ने किसी ज्योतिषी  
११ वा तन्त्री वा कसदी से ऐसी बात पूछी हो । और जो  
बात राजा पूछता है सो अनोखी है और देवताओं को  
छोड़कर जिन का निवास प्राणियों के संग नहीं है कोई  
१२ दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके । इस से राजा

ने खीभकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबेल के  
सारे परिडतों के नाश करने की आज्ञा दी । सो यह १३  
आज्ञा निकली और परिडत लोगों का घात होने पर  
था और लोग दानिय्येल और उस के संगियों को बंद  
रहे थे कि वे भी घात किये जाएं तब दानिय्येल ने १४  
जल्लादों के प्रधान अर्योक से जो बाबेल के परिडतों  
को घात करने के लिये निकला था सोच विचारकर  
और बुद्धिमानी के साथ कहा, और वह राजा के हाकिम १५  
अर्योक से पूछने लगा कि यह आज्ञा राजा की ओर से  
ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली । जब अर्योक ने  
दानिय्येल को इस का भेद बता दिया, तब दानिय्येल १६  
ने भीतर जाकर राजा से बिनती की कि मेरे लिये कोई  
समय ठहराया जाए तो मैं महाराज को स्वप्न का फल  
बताऊंगा ॥

तब दानिय्येल ने अपने घर जाकर अपने संगी १७  
इनन्याह मीशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर  
कहा, इस भेद के विषय स्वर्ग के परमेश्वर की दया के १८  
लिये यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबेल के सब और  
परिडतों के संग दानिय्येल और उस के संगी भी नाश न  
किये जाएं । तब वह भेद दानिय्येल को रात के समय १९  
दर्शन के द्वारा प्रगट किया गया तब दानिय्येल ने स्वर्ग  
के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया कि, परमेश्वर २०  
का नाम सदा से सदा लों धन्य है क्योंकि बुद्धि और  
पराक्रम उसी के हैं । और समयों और ऋतुओं का वही २१  
पलटता है राजाओं के अस्त और उदय भी वही करता  
है और बुद्धिमानों को बुद्धि और समझवालों को समझ  
वही देता है । वह गूढ़ और गुप्त बातों का प्रगट करता २२  
है वह जानता है कि अन्धियारों में क्या क्या है और उस  
के संग सदा प्रकाश बना रहता है । हे मेरे पितरों के २३  
परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि तू ने  
मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलना हम  
लोगों ने तुझ से मांगा था सो तू ने समय पर मुझ पर  
प्रगट किया है तू ने हम को राजा की बात बताई है ।  
तब दानिय्येल ने अर्योक के पास जिसे राजा ने बाबेल के २४  
परिडतों के नाश करने के लिये ठहराया था भीतर  
जाकर कहा बाबेल के परिडतों का नाश न कर मुझे  
राजा के सन्मुख भीतर ले चल मैं फल बताऊंगा ॥

तब अर्योक ने दानिय्येल को भीतर राजा के सन्मुख २५  
उतावली से ले जाकर उस से कहा यहूदी बंधुओं में से  
एक पुरुष मुझ को मिला है जो राजा को स्वप्न का फल  
बताएगा । राजा ने दानिय्येल से जिस का नाम बेलत- २६  
शस्सर भी था पूछा क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो

- २७ स्वप्न मैं ने देखा है सो फल समेत मुझे बताए । दानिय्येल ने राजा को उत्तर दिया जो भेद राजा पूछता है सो न तो परिद्धत राजा को बता सकते हैं न तंत्री न
- २८ ज्योतिषी न दूसरे होनहार बतानेहार । पर भेदों का खोलनेहारा स्वर्ग में परमेश्वर है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होनेवाला है । तेरा स्वप्न और जो कुछ तू ने पलङ्क पर
- २९ पड़े हुए देखा सो यह है । हे राजा जब तुझ को पलङ्क पर यह विचार हुआ कि पीछे क्या क्या होनेवाला है तब भेदों के खोलनेहार ने तुझ को बताया कि क्या क्या
- ३० होनेवाला है । मुझ पर तो यह भेद कुछ इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब और प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार
- ३१ समझ सके । हे राजा जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तरे साम्हने खड़ी थी सो लम्बी चौड़ी थी और उस की चमक अनुपम
- ३२ थी और उस का रूप भयंकर था । उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था उस की छाती और भुजाएं चांदी की उस का पेट और जांघें पीतल की, उस की टांगें लोहे की और उस के पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे । फिर देखते देखते तू ने क्या देखा कि एक पत्थर ने किसी के बिना खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगकर
- ३५ उन को चूर चूर कर डाला । तब लोहा मिट्टी पीतल चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गये और धूपकाल में खलिहानों के भूसे की नाई बयार से ऐसे उड़ गये कि उन का कहीं पता न रहा और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था सो बड़ा पहाड़ बन कर मारी
- ३६ पृथिवी में भर गया । स्वप्न तां यों ही हुआ और अब
- ३७ हम उस का फल राजा को समझा देते हैं । हे राजा तू तो महाराजाधिराज है क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझ को राज्य सामर्थ्य शक्ति और महिमा दी है ।
- ३८ और जहां कहीं मनुष्य पाये जाते हैं वहां उस ने उन सभों को और मैदान के जांवजन्तु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिये हैं और तुझ को उन सब का अधिकारी ठहराया है यह सोने का सिर तू ही है ।
- ३९ और तेरे पीछे उस से कुछ उतर के एक राज्य और उदय होगा फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिस में सारी पृथिवी आ जाएगी ।
- ४० और चौथा राज्य लोहे के तुल्य पोढा होगा लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं

सो जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा । और तू ने जो मूर्ति के पांवों और उन की अंगुलियों को देखा जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं इस से वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा तौभी उस में लोहे का सा कड़ापन रहेगा जैसे कि तू ने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा । और पांवों की अंगुलियां जो कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं इस का फल यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा । और तू ने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा इस का फल यह है कि उस राज्य में लोग नीच मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे पर जैसे लोहा मिट्टी के साथ मिलकर एक दिल नहीं होता तैसे ही वे दोनों भी एक न बन रहेंगे । और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो सदा लों न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा परन्तु वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उन का अन्त कर डालेगा और वह आप स्थिर रहेगा । तू ने जो देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और लोहे पीतल मिट्टी चान्दी और सोने को चूर चूर किया इसी रीति महान् परमेश्वर ने राजा को जताया कि इस के पीछे क्या क्या होनेवाला है और न स्वप्न में न उस के फल में कुछ संदेह है । इतना सुन नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरके दानिय्येल को दण्डवत् किया और आज्ञा दी कि इस को भेंट चढ़ाओ और इस के साम्हने सुगंध वस्तु जलाओ । फिर राजा ने दानिय्येल से कहा सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर और सब राजाओं का प्रभु और भेदों का खोलनेहारा है इसलिये तू यह भेद खोलने पाया । तब राजा ने दानिय्येल का पद बढ़ा किया और उस को बहुत से बड़े बड़े दान दिये और यह आज्ञा दी कि वह बाबेल के सारे प्रान्त पर हाकिम और बाबेल के सब परिद्धतों पर मुख्य प्रधान बने । तब दानिय्येल के बिनती करने से राजा ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को बाबेल के प्रान्त के कार्य के ऊपर ठहरा दिया पर दानिय्येल आप राजा के दरबार में रहा करता था ॥

३. नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिस की ऊंचाई साठ हाथ और चौड़ाई छः हाथ की थी और

(१) मूल में मुरशुरा । (२) मूल में विनाशी मनुष्यों के बरा से ।

उस ने उस को बाबेल के प्रान्त में के दूरा नाम मैदान  
 २ में खड़ा कराया । तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों  
 हाकिमों गवर्नरों जजों खजांचियों न्यायियों शास्त्रियों  
 आदि प्रान्त प्रान्त के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा  
 कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में जो उस ने खड़ी कराई  
 ३ थी आएँ । तब अधिपति हाकिम गवर्नर जज खजांची  
 न्यायी शास्त्री आदि प्रान्त प्रान्त के सारे अधिकारी  
 नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा  
 के लिये इकट्ठे हुए और उस मूरत के साम्हने खड़े  
 ४ हुए । तब ढंढारिये ने ऊंचे शब्द से पुकारके कहा हे देश  
 देश और जाति जाति के लोगो और भिन्न भिन्न भाषा  
 बोलनेहारो तुम को यह आज्ञा सुनाई जाती है कि,  
 ५ जिस समय तुम नरसिंगे बांसुली वीणा सारंगी सितार  
 पूंगी आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो उसी  
 समय गिरके नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई  
 ६ सोने की मूरत को दण्डवत् करो । और जो कोई गिरके  
 दण्डवत् न करे सो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच  
 ७ में डाल दिया जाएगा । इस कारण उस समय ज्यों ही  
 सब जाति के लोगों को नरसिंगे बांसुली वीणा सारंगी  
 सितार आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा  
 त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न  
 भिन्न भाषा बोलनेहारों ने गिरके उस सोने की मूरत को  
 जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दण्डवत्  
 ८ की । उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास  
 ९ गये और यह कह कर यहूदियों की चुगली खाई कि, वे  
 नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे हे राजा तू सदा लों  
 १० जीता रहे । हे राजा तू ने तां यह आज्ञा दी है कि जो  
 जो मनुष्य नरसिंगे बांसुली वीणा सारंगी सितार पूंगी  
 आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने तो गिरके उस  
 ११ सोने की मूरत को दण्डवत् करे । और जो कोई गिरके  
 दण्डवत् न करे सो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल  
 १२ दिया जाएगा । सुन शद्रक मेशक और अबेदनगो नाम  
 कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तू ने बाबेल के प्रान्त के कार्य  
 के ऊपर ठहराया है उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की  
 कुछ चिन्ता नहीं की वे तेरे देवता की उपासना नहीं  
 करते और जो सोने की मूरत तू ने खड़ी कराई है  
 १३ उस को दण्डवत् नहीं करते । तब नबूकदनेस्सर ने रोष  
 और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक  
 और अबेदनगो को लाओ तब वे पुरुष राजा के साम्हने  
 १४ हाजिर किये गये । नबूकदनेस्सर ने उन से पूछा हे  
 शद्रक मेशक और अबेदनगो तुम लोग जो मेरे देवता  
 की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने

की मूरत को दण्डवत् नहीं करते क्या तुम जान बूझ-  
 कर ऐसा करते हो । यदि तुम अभी तैयार हो कि जब १५  
 नरसिंगे बांसुली वीणा सारंगी सितार पूंगी आदि सब  
 प्रकार के बाजों का शब्द सुनो उसी क्षण गिरके मेरी  
 बनवाई हुई मूरत को दण्डवत् करो तो बचोगे और  
 यदि तुम दण्डवत् न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए  
 भट्टे के बीच में डाले जाओगे फिर ऐसा कौन देवता  
 है जो तुम को मेरे हाथ से छुड़ा सके । शद्रक मेशक १६  
 और अबेदनगो ने राजा से कहा हे नबूकदनेस्सर इस  
 विषय तुम्हें उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान  
 पड़ता । हमारा परमेश्वर जिस की हम उपासना करते १७  
 हैं यदि ऐसा हो तो हम को उस धधकते हुए भट्टे से  
 छुड़ा सकता है बरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी  
 छुड़ा सकता है । और जो हो सो हा पर हे राजा तुम्हें १८  
 विदित हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना न  
 करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को  
 दण्डवत् करेंगे । तब नबूकदनेस्सर जल उठा और उस १९  
 के चेहरे का रंग ढंग शद्रक मेशक और अबेदनगो की  
 ओर बदल गया तब उस ने आज्ञा दी कि भट्टे को रीति  
 से सातगुणा अधिक धधका दो । फिर अपनी सेना २०  
 में के कई एक बलवान् पुरुषों को उस ने आज्ञा दी कि  
 शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उस धधकते  
 हुए भट्टे में डाल दो । तब वे पुरुष अपने मांजों २१  
 अंगरखों बागों और और वस्त्रों सहित बांधकर उस धध-  
 कते हुए भट्टे में डाल दिये गये । वह भट्टा तो राजा २२  
 की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यन्त धधकाया गया था  
 इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो  
 को उठाया सो आग की आंच ही से जल मरे । और २३  
 उसी धधकते हुए भट्टे के बीच शद्रक मेशक और  
 अबेदनगो ये तीनों पुरुष बंधे हुए गिर पड़े । तब नबू- २४  
 कदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा  
 हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्या हम ने उस  
 आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाये  
 उन्हों ने राजा को उत्तर दिया हां राजा सच बात  
 है । फिर उस ने कहा अब क्या देखता हूँ कि चार २५  
 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उन की  
 कुछ भी हानि नहीं भासती और चौथे पुरुष का स्वरूप  
 किसी ईश्वर के पुत्र का सा है । फिर नबूकदनेस्सर २६  
 उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा  
 हे शद्रक मेशक और अबेदनगो हे परमप्रधान परमेश्वर  
 के दासो निकलकर यहां आओ यह सुनकर शद्रक मेशक  
 और अबेदनगो आग के बीच से निकल आये । जब २७

अधिपति हाकिम गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा तब क्या पाया कि इन की देह में आग का कुछ छुवाव नहीं और न इन के सिर का एक बाल भी झुलसा न इन के मोजे कुछ बिगड़े न इन में जलने की गंध कुछ पाई जाती है ।  
 २८ नबूकदनेस्सर कहने लगा धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जिस ने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिये बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रक्खा बरन यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना वा दण्डवत्  
 २९ न करेंगे । सो मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निन्दा करे सो टुकड़े टुकड़े किया जाए और उस का घर घूरा बनाया जाए क्योंकि ऐसा कोई और देवता  
 ३० नहीं जो इस रीति से बचा सके । तब राजा ने बाबेल के प्रान्त में शद्रक मेशक और अबेदनगो का पद बढ़ाया ॥

४. देश देश के और जाति जाति के लोग और

भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारे जितने सारी पृथिवी पर रहते हैं उन सभी से नबूकदनेस्सर राजा  
 २ का यह वचन हुआ कि तुम्हारा कुशल चेम बढ़े । मुझ को अच्छा लगा कि परमप्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाये हैं उन को प्रगट करूँ ।  
 ३ उस के दिखाये हुए चिन्ह क्या ही बढ़े और उस के चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रगट होती है उस का राज्य तो सदा का और उस की प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी लों बनी रहती है ॥  
 ४ मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में जिस में रहता था  
 ५ चैन से और प्रफुल्लित रहता था । मैं ने ऐसा स्वप्न देखा जिस के कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आये और जो बातें मैं ने  
 ६ देखीं उन के कारण मैं घबरा गया । सो मैं ने आज्ञा दी कि बाबेल के सब परिडल मेरे स्वप्न का फल मुझे  
 ७ बताने के लिये मेरे साम्हने हाजिर किये जाएं । तब ज्योतिषी तंत्री कसदी और और होनहार बतानेहारे भीतर आये और मैं ने उन को अपना स्वप्न बताया पर  
 ८ वे उस का फल न बता सके । निदान दानिय्येल मेरे सन्मुख आया जिस का नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रक्खा गया था और जिस में पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है और मैं ने उस को अपना  
 ९ स्वप्न यह कहकर बता दिया कि, हे बेलतशस्सर तू तो

सब ज्योतिषियों का प्रधान है मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता सो जो स्वप्न मैं ने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे । पलंग पर जो दर्शन १० मैं ने पाया सो यह है अर्थात् मैं ने क्या देखा कि पृथिवी के बीचोबीच एक वृक्ष लगा है जिस की ऊंचाई बड़ी है । वह वृक्ष बढ़ बढ़ कर दृढ़ हो गया उस की ऊंचाई स्वर्ग ११ लों पहुंची और वह सारी पृथिवी की छोर लों देख पड़ता है । उस के पत्ते सुन्दर हैं और उस में फल बहुत हैं यहां १२ लों कि उस में सभी के लिये भोजन है उस के नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती है और उस की डालियों में सब आकाश की चिड़ियाएं बसेरा करती हैं और सारे प्राणी उस से आहार पाते हैं । मैं ने पलंग पर १३ दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया । उस ने ऊंचे शब्द से पुकार के यह कहा १४ कि वृक्ष को काट डालो उस की डालियों को काट दो उस के पत्ते भाड़ दो और उस के फल छितरा डालो पशु उस के नीचे से हट जाएं और चिड़ियाएं उस की डालियों पर से उड़ जाएं । तौभी उस के टूठ को जड़ समेत भूमि १५ में छोड़ो और उस को लोहे और पीतल के बन्धन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो वह आकाश की ओस से भोगा करे और भूमि की घास खान में मैदान के पशुओं के संग भागी हो । उस का मन बदले और १६ मनुष्य का न रहे पशु ही का सा बन जाए और सात काल उस पर बीतने पाएं । यह नियम पहरुओं के १७ निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली और उस की यह मनसा है कि जो जीते हैं सो जान लें कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता और उस को जिसे चाहे उसे दे देता है और तब उस पर नीच से नीच मनुष्य भी ठहरा देता है । मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा सो हे १८ बेलतशस्सर तू इस का फल बता क्योंकि मेरे राज्य में और कोई परिडल तो इस का फल मुझे समझा नहीं सकता पर तुझ में जो पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है इस से तू उसे समझ सकता है ॥

तब दानिय्येल जिस का नाम बेलतशस्सर भी १९ था सो घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया राजा कहने लगा हे बेलतशस्सर इस स्वप्न से वा इस के फल से तू व्याकुल मत हो । बेलतशस्सर ने कहा हे मेरे प्रभु यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इस का अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले । जिस वृक्ष २० को तू ने देखा जो बढ़ा और दृढ़ हो गया और उस की

जुंवाई स्वर्ग लों पहुँची वह पृथिवी भर पर देख पड़ा,  
 २१ उस के पत्ते सुन्दर और फल बहुत थे उस में सभी के  
 लिये भोजन था उस के नीचे मैदान के सब पशु रहते थे  
 और उस की डालियों में आकाश की चिड़ियाएँ बसेंरा  
 २२ करती थीं । हे राजा उस का अर्थ तू ही है तू तो बड़ा  
 और सामर्थ्य हो गया तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग लों  
 पहुँच गई और तेरी प्रभुता पृथिवी की छोर लों फैली  
 २३ है । और हे राजा तू ने जो एक पवित्र पहरे के स्वर्ग  
 से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष के काट डालो  
 और उस का नाश करो तौभी उस के ठूँठ को जड़ समेत  
 भूमि में छोड़ो और उस को लोहे और पीतल के बन्धन  
 से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो वह  
 आकाश की ओस से भीगा करे और उस को मैदान के  
 पशुओं के संग ही भाग मिले और जब लों सात काल  
 उस पर बीत न चुके तब लों उस की ऐसी ही दशा  
 २४ रहे । हे राजा इस का फल जो परमप्रधान ने ठाना है  
 २५ कि राजा पर घटे सो यह है कि, तू मनुष्यों के बीच से  
 निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा  
 और बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस  
 से भीगा करेगा और सात काल तुझ पर बीतेंगे जब लों  
 कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परमप्रधान ही  
 प्रभुता करता और उस को जिसे चाहे उसे दे देता है ।  
 २६ और उस वृक्ष के ठूँठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा  
 जो हुई इस का फल यह है कि तेरा राज्य तेरे लिये  
 बना रहेगा और जब तू जान ले कि जगत का प्रभु स्वर्ग  
 २७ ही में है तब से तू फिर राज्य करने पाएगा । इस  
 कारण हे राजा मेरी यह सम्मति तुझे मानने के योग्य  
 जान पड़े कि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और  
 अधर्म छोड़कर दान हीनों पर दया करने लगे क्या  
 जानिये ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे ॥

२८ यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया ।  
 २९ बारह महीने के बीते पर वह बाबेल के राजभवन की  
 ३० छत पर टहल रहा था । तब वह कहने लगा क्या वह  
 बड़ा बाबेल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और  
 सामर्थ्य से राजनिवास होने को अपने प्रताप की बड़ाई  
 ३१ के लिये बसाया है । यह वचन राजा के मुँह से निकलने  
 न पाया कि यह आकाशवाणी हुई कि हे राजा नबूकद-  
 नेस्सर तेरे विषय आज्ञा निकलती है राज्य तेरे हाथ से  
 ३२ छूट गया । और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा  
 और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की  
 नाई घास चरेगा और सात काल तुझ पर बीतेंगे जब

(१) मूल में कि स्वर्ग प्रभुता करता है ।

लों कि तू जान न ले कि परमप्रधान मनुष्यों के राज्य में  
 प्रभुता करता और उस को जिसे चाहे उसे दे देता है ।  
 उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय पूरा ३३  
 हुआ अर्थात् वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों  
 की नाई घास चरने लगा और उस की देह आकाश  
 की ओस से भीगती थी यहां लों कि उस के बाल  
 उकाव पक्षियों के परों के और उस के नाखून चिड़ियाओं  
 के चंगुलों के समान बढ़ गये । उन दिनों के बीते पर मुझ ३४  
 नबूकदनेस्सर ने अपनी आँखें स्वर्ग की ओर उठाई और  
 मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई तब मैं ने परमप्रधान  
 को धन्य कहा और जो सदा लों जीता रहता है उस की  
 स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि उस की  
 प्रभुता सदा की है और उस का राज्य पीढ़ी से पीढ़ी  
 लों बना रहनेहारा है । और पृथिवी के सारे रहनेहारे ३५  
 उस के साम्हने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की  
 मेना और पृथिवी के रहनेहारों के बीच अपनी ही इच्छा  
 के अनुसार काम करता है और कोई उस को रोककर  
 उस से नहीं कह सकता कि तू ने यह क्या किया है ।  
 उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और ३६  
 मेरे राज्य की महिमा के लिये मेरा प्रताप और श्री मुझ  
 में फिर आ गई और मेरे मंत्री और और प्रधान लोग  
 मुझ से भेंट करने को आने लगे और मैं अपने राज्य में  
 स्थिर हो गया और मेरी विशेष बड़ाई होने लगी । सो ३७  
 अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता और उस  
 की स्तुति और महिमा करता हूँ क्योंकि उस के सब काम  
 सच्चे और उस के सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग  
 गर्व में चलते हैं उन को वह नीचा कर सकता है ॥

#### ५. बेलशस्सर नाम राजा ने अपने

हजार प्रधानों के लिये  
 बड़ी जेवनार की और उन हजार लोगों के साम्हने  
 दाखमधु पिया । दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा २  
 दी कि सोने चाँदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर  
 ने यरूशलेम के मन्दिर में से निकाले थे सो ले आओ  
 कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों  
 समेत उन से पीएँ । तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में ३  
 परमेश्वर के भवन के मन्दिर में से निकाले गये थे सो  
 लाये गये और राजा अपने प्रधानों और रानियों और  
 रखेलियों समेत उन से पीने लगा । वे दाखमधु पी ४  
 पीकर सोने चाँदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देव-  
 ताओं की स्तुति कर रहे थे कि, उसी घड़ी मनुष्य ५  
 के हाथ की सी कई अंगुलियाँ निकलकर दीवट के साम्हने

(२) मूल में उस का हाथ मार के ।

राजमन्दिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगीं और हाथ का जो भाग लिख रहा था सो राजा को देख पड़ा । उसे देखकर राजा भीड़त हो गया और वह सोचते सोचते घबरा गया और उस की कटि के जोड़ दीले हो गये और कांपते कांपते उस के घुटने एक दूसरे से लगन लगे । तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारके तन्त्रियों कसदियों और और होनहार बतानेहारों को हाजिर कराने की आज्ञा दी । जब याबेल के परिडित पास आये तब राजा उन से कहने लगा जो कोई वह लिखा हुआ बांचे और उस का अर्थ मुझे समझाए उसे बैजनी रंग का वस्त्र और उस के गले में सोने का कण्ठा पहिनाया जाएगा और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा । तब राजा के सब परिडित लाग भीतर तो आये पर उस लिखे हुए को बांच न सके और न राजा को उस का अर्थ समझा सके । इस पर बेलशस्तर राजा निपट घबरा गया और वह श्रीहत होगया और उस के प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए । राजा और प्रधानों के वचनों का हाल सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी हे राजा तू युगयुग जीता रहे मन में न घबरा और न श्रीहत हो । क्योंकि तेरे राज्य में दानिव्येल एक पुरुष है जिस का नाम तेरे पिता ने बेलतशस्तर रक्खा था उस में पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है और उस राजा के दिनों में प्रकाश प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि उस में पाई गईं और हे राजा तेरा पिता जो राजा था उस न उस को सब ज्योतिषियों तन्त्रियों कसदियों और और होनहार बतानेहारों का प्रधान ठहराया था । क्योंकि उस में उत्तम आत्मा ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहिलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गईं । सो अब दानिव्येल बुलाया जाए और वह इस का अर्थ बताएगा ॥

तब दानिव्येल राजा के साम्हने भीतर बुलाया गया । राजा दानिव्येल से पूछने लगा कि क्या तू वी दानिव्येल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाये हुए यहूदी बंधुओं में से है । मैं ने तेरा विषय सुना है कि ईश्वरों का आत्मा तुझ में रहता है और प्रकाश प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है । सो अभी परिडित और तंत्री लाग मेरे साम्हने इसलिये लाये गये थे कि वह लिखा हुआ बांचे और उस का अर्थ मुझे बताएं और वे तो उस बात का अर्थ न समझा सके । पर मैं ने तेरे विषय सुना है कि दानिव्येल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है सो अब यदि तू उस लिखे हुए को बांच सके और

उस का अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने का कण्ठा पहिनाया जाएगा और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा । दानिव्येल ने राजा से कहा अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है सो दूसरे को दे मैं वह लिखी हुई बात राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उस का अर्थ भी तुझे समझाऊंगा । हे राजा परमप्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य बढ़ाई प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था । और उस बढ़ाई के कारण जो उस ने उस को दी थी देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारों उस के साम्हने कांपते और धरधराते थे जिस को वह चाहता उसे वह घात कराता था और जिस को वह चाहता उसे वह जीता रखता था जिस को वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिस को वह चाहता उसे वह गिरा देता था । निदान जब उस का मन फूल उठा और उस का आत्मा कठोर हो गया यहां लों कि वह अभिमान करने लगा तब वह अपने राजसिंहासन पर से उतारा गया और उस की प्रतिष्ठा भंग की गई, और वह मनुष्यों में से निकाला गया और उस का मन पशुओं का सा और उस का निवास बनैले गदहों के बीच हो गया वह बैलों की नाई घास चरता और उस का शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था जब लों कि उस ने जान न लिया कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है । तौभी हे बेलशस्तर तू जो उस का पुत्र है यद्यपि यह सब कुछ जानता था तौभी तेरा मन नम्र न हुआ । बरन तू ने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठा उस के भवन के पात्र मंगाकर अपने साम्हने धरवा लिये और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तू ने उन से दाखमधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं उन की तो स्तुति की परन्तु परमेश्वर जिस के हाथ में तेरा प्राण है और जिस के वश में तेरा सब चलना फिरना है उस का मन्मान तू ने नहीं किया । तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रगट किया गया और वे शब्द लिखे गये । और जो शब्द लिखे गये सो ये हैं अर्थात् मने मने तकेल उपर्सीन<sup>१</sup> । इस वाक्य का अर्थ यह है मने परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उस का अन्त कर दिया है । तकेल तू मानो तुला में तौला गया और

(१) अर्थात् गिना । (२) अर्थात् तौला । (३) अर्थात् और बांटते हैं ।



२८ हलका जंचा है । परेस<sup>१</sup> तेरा राज्य बांटकर मादियों और  
 २९ फारसियों को दिया गया है । तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी  
 और दानिय्येल को बैजनी रंग का बख और उस के  
 गले में सोने का कंठा पहिनाया गया और ढंढोरिये ने  
 उस के विषय पुकारा कि राज्य में तीसरा दानिय्येल  
 ३० ही प्रभुता करेगा । उसी रात को कसदियों का राजा  
 ३१ बेलशस्सर मार डाला गया । और दारा मादी जो  
 कोई बासठ बरस का था राजगद्दी पर विराजने लगा ॥

**६. दारा** को यह भावा कि अपने राज्य  
 के ऊपर एक सौ बीस ऐसे

अधिपति ठहराए जो सारे राज्य में अधिकार रखें ।  
 २ और उन के ऊपर उस ने तीन अध्यक्ष जिन में से दानि-  
 य्येल एक था इसलिये ठहराये कि वे उन  
 अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा  
 ३ की कुछ हानि न होने पाये । जब यह देखा गया कि  
 दानिय्येल में उत्तम आत्मा रहता है तब उस को उन  
 अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली बरन  
 राजा यह भी सोचता था कि उस को सारे राज्य के  
 ४ ऊपर ठहराऊंगा । तब अध्यक्ष और अधिपति दानिय्येल  
 के विरुद्ध राजकार्य के विषय गौं ढंढने लगे पर वह जो  
 विश्वासयोग्य था और उस के काम में कोई भूल वा दोष  
 न निकला सो वे ऐसी कोई गौं वा दोष न पा सके ।  
 ५ तब वे लोग कहने लगे हम उस दानिय्येल के परमेश्वर  
 की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उस के  
 ६ विरुद्ध कोई गौं न पा सकेंगे । सो वे अध्यक्ष और  
 अधिपति राजा के पास उतावली से आये और उस से  
 ७ कहा हे राजा दारा तू युगयुग जीता रहे । राज्य के सारे  
 अध्यक्षों ने और हाकिमों अधिपतियों न्यायियों और  
 गवर्नरों ने भी आपस में संमति की है कि राजा ऐसी  
 आज्ञा दे और ऐसी सख्त मनाही करे कि तीस दिन  
 लों जो कोई हे राजा तुम्हे छोड़ किसी और मनुष्य से  
 वा देवता से बिनती करे सो सिहों के गड़हे में डाल  
 ८ दिया जाए । सो अब हे राजा ऐसी मनाही कर दे और  
 इस पत्र पर दस्तखत कर जिस से यह बात मादियों  
 और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल  
 ९ बदल न हो । तब दारा राजा ने उस मनाही के लिये  
 १० पत्र पर दस्तखत किया । जब दानिय्येल को मालूम  
 हुआ कि उस पत्र पर दस्तखत किया गया है तब अपने  
 घर में गया जिस की उपरौठी कोठरी की खिड़कियां  
 यरूशलेम के साम्हने खुली रहती थीं और अपनी  
 पहली रीति के अनुसार जैसा वह दिन में तीन बार अपने  
 (१) अर्थात् बांट दिया ।

परमेश्वर के साम्हने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद  
 करता था वैसा ही तब भी करता रहा । सो उन पुरुषों ११  
 ने उतावली से आकर दानिय्येल को अपने परमेश्वर के  
 साम्हने बिनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया ।  
 तब वे राजा के पास जाकर उस की मनाही के विषय १२  
 उस से कहने लगे हे राजा क्या तू ने ऐसी मनाही  
 के लिये दस्तखत नहीं बिया कि तीस दिन लों जो कोई  
 मुम्हे छोड़ किसी मनुष्य वा देवता से बिनती करे तो सिहों  
 के गड़हे में डाल दिया जाएगा । राजा ने उत्तर दिया हां  
 मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार  
 यह बात स्थिर है । तब उन्होंने ने राजा से कहा यहूदी १३  
 बंधुओं में से जो दानिय्येल है उस ने हे राजा न तो  
 तेरी ओर कुछ ध्यान दिया न तेरे दस्तखत किए हुए  
 मनाही के पत्र की ओर । वह दिन में तीन बार बिनती  
 किया करता है । यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास १४  
 हुआ और दानिय्येल के बचाने के उपाय सोचने लगा  
 और सूर्य के अस्त होने लों उस के बचाने का यत्न  
 करता रहा । तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से १५  
 आकर कहने लगे हे राजा यह जान रख मादियों और  
 फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो मनाही वा  
 आज्ञा राजा ठहराये सो नहीं बदल सकती । तब राजा १६  
 ने आज्ञा दी और दानिय्येल लाकर सिहों के गड़हे  
 में डाल दिया गया । उस समय राजा ने दानिय्येल  
 से कहा तेरा परमेश्वर जिस की तू नित्य उपासना करता  
 है सोई तुम्हे बचाएगा । तब एक पत्थर लाकर उस १७  
 गड़हे के मुंह पर रखवा गया और राजा ने उस पर  
 अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से  
 छाप दी कि दानिय्येल के विषय कुछ बदलने न  
 पाए । तब राजा अपने मन्दिर में चला गया और उस १८  
 रात को बिना भोजन बिताया और न उस के पास  
 सुख विलास की कोई वस्तु पहुंचाई गई और न नींद  
 उस को कुछ भी आई । भोर को पह फटते राजा उठा १९  
 और सिहों के गड़हे की ओर फुर्ती करके चला ।  
 जब राजा गड़हे के निकट आया तब शोकभरी वाणी २०  
 से चिल्लाने लगा और दानिय्येल से कहने लगा हे दानि-  
 य्येल हे जीवते परमेश्वर के दास क्या तेरा परमेश्वर  
 जिस की तू नित्य उपासना करता है तुम्हे सिहों से बचा  
 सका है । तब दानिय्येल ने राजा से कहा हे राजा २१  
 तू युगयुग जीता रहे । मेरे परमेश्वर ने अपना दूत २२  
 भेजकर सिहों के मुंह को ऐसा बन्द कर रखवा है कि  
 उन्होंने ने मेरी कुछ भी हानि नहीं की इस का कारण  
 यह है कि मैं उस के साम्हने निर्दोष पाया गया और

- २३ हे राजा तेरी भी मैं ने कुछ हानि नहीं की । तब राजा ने दानियेल के विषय बहुत आनन्दित होकर उस को गड़हे में से निकालने की आज्ञा दी । सो दानियेल गड़हे में से निकाला गया और उस में हानि का कोई चिन्ह पाया न गया इस कारण कि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था । और राजा ने आज्ञा दी तब जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी सो अपने अपने लड़केवालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड़हे में डाल दिये गये और वे गड़हे की पेंदी लों न पहुँचे कि सिंहों ने उन को छापकर सब हड्डियों समेत उन को चबा डाला ॥
- २५ तब दारा राजा ने सारी पृथिवी के रहनेहारे देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारों के पास यह लिखा कि तुम्हारा बहुत कुशल हो । मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहें क्योंकि जीवता और युगयुग ठहरनेहारा परमेश्वर वही है और उस का राज्य अविनाशी और उस का प्रभुता सदा रहेगी । जिस ने दानियेल को सिंहों से बचाया है सो बचाने और छुड़ानेहारा और स्वर्ग में और पृथिवी पर चिन्हों और चमत्कारों का करनेहारा ठहरा है । और दानियेल दारा और कुसू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान् रहा ॥

## ७. बाबेल के राजा बेलशस्सर के पहिले

- बरस में दानियेल ने पलङ्ग पर स्वप्न देखा पीछे उस ने वह स्वप्न लिखा और बातों का सार भी बर्णन किया । दानियेल ने यह कहा कि मैं ने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी बयार चलने लगी । तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जन्तु जो एक दूसरे में भिन्न थे निकल आये । पहिला जन्तु सिंह के समान था और उस के उकाव के से पंख थे और मेरे देखते देखते उस के पंखों के पर नोचे गये और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पाँवों के बल खड़ा किया गया और उस को मनुष्य का हृदय दिया गया । फिर मैं ने एक और जन्तु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उस के मुँह में दांतों के बीच तीन पसुली थीं और लोग उस से कह रहे थे कि उठकर बहुत मांस खा । इस के पीछे मैं ने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जन्तु है जिस की पीठ पर पच्ची के से

चार पंख हैं और उस जन्तु के चार सिर हैं और उस को अधिकार दिया गया । फिर इस के पीछे मैं ने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि चौथा एक जन्तु भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उस के लोहे के बड़े बड़े दांत हैं वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है और वह पहिले सब जन्तुओं में भिन्न है और उस के दस सींग हैं । मैं उन सींगों का ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उन के बीच एक और छोटा सा सींग निकला और इस के बल से उन पहिले सींगों में से तीन उखाड़े गये फिर मैं ने क्या देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बाल बालनेहारा मुँह भी है । मैं ने देखते देखते अन्त में क्या देखा कि सिंहासन रक्खे गये और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ जिस का वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे हैं उस का सिंहासन अग्निमय और इस के पहिले धधकती हुई आग के देख पड़ते हैं । उस प्राचीन के सन्मुख से आग का धारा निकलकर वह रही है फिर हजारों हजार लोग उस का सेवा टहल कर रहे हैं और लाखों लाख लोग उस के साम्हने हाजिर हैं फिर न्यायी बैठ गये और पुस्तकें खोली गई हैं । उस समय उस सींग का बड़ा बाल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अन्त में क्या देखा कि वह जन्तु घात किया गया और उस का शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया । और रहे हुए जन्तुओं का अधिकार ले लिया गया पर उन का प्राण कुछ समय के लिये बचाया गया । मैं ने रात में स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि मनुष्य का सन्तान सा कोई आकाश के मेघों समेत आ रहा है और वह उस अति प्राचीन के पास पहुँचा और उस के समीप किया गया । तब उस को ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारे सब उस के अधीन हों उस की प्रभुता सदा की और अटल और उस का राज्य अविनाशी ठहरा ॥

और मुझ दानियेल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैं ने देखा था उस के कारण मैं घबरा गया । तब जो लोग पास खड़े थे उन में से एक के पास जाकर मैं ने उन सारी बातों का भेद पूछा उस ने यह

(१) मूल में समय और काल के लिये ।

(२) मूल में आत्मा बँह के बीच घबरा गया ।

(३) मूल में मेरे सिर के दर्शनों ने मुझे घबरा दिया ।

१७ कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बता दिया कि, उन चार बड़े बड़े जन्तुओं का अर्थ चार राज्य हैं जो पृथिवी पर १८ उदय होंगे। परन्तु परमप्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगयुग बरन सदा लों उन के अधिकारी १९ बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जन्तु का भेद भी जान लूं जो और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था उस के दांत लोहे के और नखून पीतल के थे वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और २० बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उस के सिर में के दस सींगों का भेद और जिस ओर सींग के निकलने से तीन सींग गिर गये अर्थात् जिस सींग की आंखें और बड़ा बोल बोलनेहारा मुंह और सब और सींगों से अधिक कठोर चेष्टा थी उस के भी भेद जानने की मुझे २१ इच्छा हुई। और मैं ने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल २२ भी हो गया, जब तक कि वह अति प्राचीन न आ गया तब परमप्रधान के पवित्र लोग न्यायी ठहरे और उन २३ पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय पहुंचा। उस ने कहा उस चौथे जन्तु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथिवी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथिवी को नाश करेगा और दांव दांवकर चूर चूर २४ करेगा। और उन दस सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से दस राजा उठेंगे और उन के पीछे उन पहिलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो तीन राजाओं को २५ गिरा देगा। और वह परमप्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परमप्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा २६ बरन साढ़े तीन काल लों वे सब उस के बश में कर दिये जाएंगे। और न्यायी बैठेंगे तब उस की प्रभुता छीनकर मिटाई और नाश की जाएगी यहां लों कि उस का अन्त २७ ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती भर पर के राज्य की महिमा परमप्रधान ही की प्रजा अर्थात् उस के पवित्र लोगों को दी जाएगी उस का राज्य तो सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उस के अधीन होंगे और उस की आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन तो मैं अब कर चुका पर मुझ दानियेल के मन में बड़ी खबर्राहट बनी रही और मैं श्रीहत हो गया और मैं इस बात को अपने मन में रक्खे रहा ॥

(१) मूल में राजा ।

(२) मूल में न्याय बैठेगा ।

(३) मूल में आकाश भर के नीचे के राज्य ।

## ८. बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे

बरस में एक बात मुझ दानियेल के दर्शन के द्वारा उस बात के पीछे दिखाई गई जो पहिले मुझे दिखाई गई थी। जब मैं एलाम २ नाम प्रान्त में के शूशन नाम राजगढ़ में रहता था तब मैं ने दर्शन में क्या देखा कि मैं ऊलै नदी के तीर पर हूं। फिर मैं ने आंख उठाकर क्या देखा कि उस नदी ३ के साम्हने दो सींगवाला एक मेढ़ा खड़ा है और सींग दोनों तो बड़े हैं पर उन में से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है सो पीछे ही निकला। मैं ने उस मेढ़े को ४ देखा कि वह पच्छिम उत्तर और दक्खिन ओर सींग मारता रहता है और न तो कोई जन्तु उस के साम्हने खड़ा रह सकता और न कोई किसी को उस के हाथ से बचा सकता है और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। मैं सोच रहा था कि फिर ५ क्या देखा कि एक बकरा पच्छिम दिशा से निकलकर सारी पृथिवी के ऊपर हो आया और चलते समय भूमि में पांव न ह्नुवाया और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। और वह उस दो सींगवाले ६ मेढ़े के पास जा जिस को मैं ने नदी के साम्हने खड़ा देखा था उस पर जलकर अपने सारे बल से लपका। मैं ने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर भुंभ- ७ लाया और मेढ़े को मारके उस के दोनों सींगों को तोड़ दिया और उस का साम्हना करने को मेढ़े का कुछ बश न चला सो बकरे ने उस को भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेढ़े का उस के हाथ से ह्नुवानेहारा कोई न मिला। तब बकरा अत्यन्त बड़ाई मारने लगा और जब ८ बलवन्त हुआ तब उस का बड़ा सींग टूट गया और उस की सन्ती देखने योग्य चार सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इन में से एक सींग ९ से एक छोटा सा सींग और निकला जो दक्खिन पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। बरन १० वह स्वर्ग की सेना लों बढ़ गया और उस में से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। बरन वह उस सेना के प्रधान लों भी बढ़ गया और उस ११ का नित्य होमबलि बन्द कर दिया गया और उस का पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया। और लोगों के अपराध १२ के कारण नित्य होमबलि के साथ सेना भी उस के हाथ में कर दी गई और उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला १३ दिया और वह काम करते करते कृतार्थ हो गया। तब मैं ने एक पवित्र जन को बोलते सुना फिर एक और पवित्र जन ने उस पहिले बोलनेहारे से पूछा कि नित्य

होमबलि और उजड़वानेहारे अपराध के विषय जो कुछ दर्शन देखा गया सो कब लों फलता रहेगा अर्थात् पवित्र-स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब लों होता रहेगा । उस ने मुझ से कहा जब लों सांभ और सबेरा दो हजार तीन सौ बार न हों तब लों वह होता रहेगा तब पवित्रस्थान शुद्ध किया जाएगा ॥

१५ यह बात दर्शन में देखकर मैं दानिय्येल इस के समझने का यत्न करने लगा इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सन्मुख खड़ा हुआ देख पड़ा । तब मुझे ऊलै नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकारके कहता था कि हे गब्रीएल उस जन को उस की देखी हुई बातें समझा । सो जहां मैं खड़ा था यहां वह मेरे निकट आया और उस के आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा तब उस ने मुझ से कहा हे मनुष्य के संतान उन देखी हुई बातों को समझ ले क्योंकि उन का अर्थ अन्त ही के समय में फलेगा । जब वह मुझ से बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा पर उस ने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया । तब उस ने कहा कोप भड़कने के अन्त के दिनों में जो कुछ हांगा सो मैं तुम्हें जताता हूं क्योंकि अन्त के ठहराये हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा । जो दो सींगवाला मेड़ा तूने देखा उस का अर्थ मादियों और फरसियों के राज्य है । और वह रौंआर यकरा यूनान का राज्य ठहरा और उस की आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला सो पहिला राजा ठहरा । और वह सींग जो टूट गया और उस की सन्ती चार सींग जो निकले इस का अर्थ यह है कि उस जाति से चार राज्य उदय तो होंगे पर उन का बल उस का सा न होगा । और उन राज्यों के अन्त समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टिवाला और पहली धूमनेहारा एक राजा उठेगा । और उस का सामर्थ्य बड़ा तो होगा पर उस पहिले राजा का सा नहीं और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और कृतार्थ होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों के और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा । और उस की चतुराई के कारण उस का छल सफल हांगा और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा वरन वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा पर अन्त को वह किसी के हाथ से बिना मार खाये टूट जाएगा, और सांभ और सबेरे के विषय जो कुछ तू ने देखा और सुना

है सो सच बात है पर जो कुछ तू ने दर्शन में देखा है उसे बन्द रख क्योंकि वह बहुत दिनों के पीछे फलेगा । तब मुझ दानिय्येल का बल जाता रहा और मैं कुछ २७ दिन तक बीमार पड़ा रहा तब मैं उठकर राजा का काम-काज फिर करने लगा पर जो कुछ मैं ने देखा था उस से मैं चकित रहा क्योंकि उस का कोई समझानेहारा न रहा ॥

## ६. मादो क्षयर्ष का पुत्र दारा जो कसदियों

के देश पर राजा ठहराया गया उस के राज्य के पहिले बरस में, मुझ दानिय्येल ने शाब्ब के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कितने बरसों के बीते पर अर्थात् सत्तर बरस के पाँडे निपट जाएगी । तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिडगिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहिन राख में बैठकर वर मांगने लगा । मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया कि हे प्रभु तू महान् और भययोग्य ईश्वर है जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा माननेहारों के साथ अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहता है । हम लोगों ने तो पाप कुटिलता दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया । और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं हाकिमों पितरों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बात करते थे उन की हम ने नहीं सुनी । हे प्रभु तू धर्मी है और हम लोगों को आज के दिन लजाना पड़ता है अर्थात् यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी वरन क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोग जिन्हें तू ने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बरबस कर दिया है उन सभों को लजाना ही है । हे यहोवा हम लोगों ने जो अपने राजाओं हाकिमों और पितरों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है इस कारण हम को लजाना पड़ता है । पर यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गये तौभी वह दयासागर और क्षमा की खानि है । हम तो अपने परमेश्वर यहोवा को शिक्ता सुनने पर भी जो उस ने अपने दास नबियों से हम को सुनवा दी उस पर नहीं चले । वरन सारे इस्राएलियों ने भी तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गये कि तेरी नहीं सुनी इस कारण जिस स्थाप की चर्चा

- परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है वह स्थाप हम पर घट गया क्योंकि हम ने उस के विरुद्ध
- १२ पाप किया है । सो उस ने हमारे और हमारे न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है यहां लों कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है वैसी सारी धरती पर<sup>१</sup> और कहीं नहीं पड़ी ।
- १३ जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है तांभी हम अपने परमेश्वर यहोवा के मनाने के लिये न तो अपने अधर्म के कामों में फिर और न तेरी सत्य बातों में प्रवीणता प्राप्त की ।
- १४ इस कारण यहोवा ने सोच सोचकर<sup>२</sup> हम पर विपत्ति डाली है क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सभी में धर्मी ठहरता है पर हम ने उस की नहीं सुनी । और अब है हमारे परमेश्वर हे प्रभु तू ने तो अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज लों प्रसिद्ध है पर हम ने पाप और दुष्टता ही की है ।
- १५ हे प्रभु हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण तो यरूशलेम और तेरी प्रजा की हमारे आस पास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है तांभी तू अपने सारे धर्म के कामों के कारण अपना कोप और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से
- १७ जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है उतार दे । हे हमारे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़ हुए पवित्रस्थान पर अपने मुख का
- १८ प्रकाश चमका है प्रभु अपने निमित्त यह कर । हे मेरे परमेश्वर कान लगाकर सुन आंखें खोलकर हमारी उजाड़ की दशा और उस नगर को भी देख जा तेरा कहलाता है क्योंकि हम जो तेरे साम्हने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं ।
- १९ हे प्रभु सुन ले हे प्रभु पाप क्षमा कर हे प्रभु ध्यान देकर जा करना बसा कर विलम्ब न कर हे मेरे परमेश्वर तेरा नगर और तेरी प्रजा जो तेरी ही कहलाती है इसलिये अपने निमित्त ऐसा ही कर ॥
- २० यों मैं प्रार्थना करता और अपने और अपने इस्राएली जातिभाइयों के पाप का अंगीकार करता और अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उस के पवित्र पर्वत
- २१ के लिये गिड़गिड़ाकर बिनती करता ही था, कि वह

(१) मूल में उठेला ।

(२) मूल में सारे आकाश के तले ।

(३) मूल में जाग जागकर ।

पुरुष गब्रीएल जिसे मैं ने उस समय देखा था जब मुझे पहिले दर्शन हुआ उस ने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांभ के अन्नबलि के समय मुझे को खू लिया, और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा और २२ कहा है दानिव्येल मैं अभी तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को निकल आया हूँ । जब तू गिड़गिड़ाकर बिनती २३ करने लगा तब ही इस की आज्ञा निकली सो मैं तुझे समझाने को आया हूँ क्योंकि तू आत प्रिय ठहरा सो उस विषय को समझ और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले । तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिये सत्तर २४ सत्तें ठहराये गये कि उन के अन्त लों अपराध का होना बन्द हो और पापों का अन्त और अधर्म का प्रायश्चित्त किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रगट होए<sup>४</sup> और दर्शन की बात पर और नबूवत पर छाप दी जाए और परमपवित्र का अभिषेक किया जाए । सो यह २५ जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से ले आभिषेक प्रधान के समय लों सात सत्तें बीतेंगे फिर बासठ सत्तों के बीते पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा । और उन बासठ सत्तों के बीते पर २६ आभिषेक पुरुष नाश किया जाएगा<sup>५</sup> और उस के हाथ कुछ न लगेगा और आनंदहार प्रधान की प्रजा नगर और पवित्रस्थान को नाश ता करेगी पर उस प्रधान का अन्त ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है तांभी उस अन्त लों लड़ाई होती रहगी क्योंकि उजड़ जाना निश्चय करके ठाना गया है । और वह प्रधान एक सत्त के लिये बहुता २७ के संग दृढ़ वाचा बांधेगा पर आधे ही सत्त के बात पर वह मेलबलि और अन्नबलि को बन्द करेगा और धिनीनी वस्तुओं के कंगूर पर उजड़वानेहारा दिखाई देगा और निश्चय से ठनी हुई समाप्ति के होने लों इश्वर का आप उजड़वानेहारे पर पड़ा रहेगा<sup>६</sup> ॥

## १०. फारस देश के राजा कुसू के राज्य

के तीसरे बरस में दानिव्येल पर जो बेलतशस्सर भी कहावता है एक बात प्रगट की गई और यह बात सच है कि बड़ा युद्ध हांगा सो उस ने इस बात को बूझ लिया और इस देखी हुई बात की समझ उस को आ गई । उन दिनों में २ दानिव्येल तीन अठवारों तक शोक करता रहा । उन ३

(४) मूल में लाया जाय ।

(५) मूल में काटा जाएगा ।

(६) मूल में उठेला जायगा ।

तीन अश्वारों के पूरे होने लों मैं ने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस वा दाखमधु अपने मुंह में  
 ४ छुआया न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया । फिर पहले महीने के चौबीसवें दिन को मैं हिंदूकेल नाम  
 ५ नदी के तीर पर था । तब मैं ने आंखें उठाकर क्या देखा कि सन का बल पहिने हुए और ऊपज देश के कुन्दन  
 ६ से कमर बान्धे हुए एक पुरुष है । उस का शरीर पीराजा सा उस का मुख विजली सा उस की आंखें जलत हुए दीपक सी उस की बांहें और पांव चमकाय हुए पातल के से और उस के वचना का शब्द भाड़ का  
 ७ सा था । उस का केवल मुझ दानिव्येल ही ने देखा और मर संगी मनुष्यों को उस का कुछ दर्शन न हुआ वे बहुत ही धरधराते लगे और छुपने के लिये भाग  
 ८ गये । सा मैं अकला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा इस से मरा बल जाता रहा और मैं श्राहित हो  
 ९ गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा । तोभी मैं ने उस पुरुष के वचना का शब्द सुना और जब वह मुझे सुन पड़ा तब मैं मुह के बल गिरके भारी नींद में पड़ा  
 १० हुआ भूमि पर आधि मुंह था । फिर किसी ने अपना हाथ मेरी देह में छुवाया और मुझे उठाकर घुटनों और  
 ११ हथलिया के बल लड़खड़ाते बंक्या कर दिया । तब उस न मुझ से कहा है दानिव्येल है अति प्रिय पुरुष जो वचन में तुझ से कहना चाहता हूँ सा समझ ल और सीधा खड़ा हो क्योंकि मैं अभा तर पास भेजा गया हूँ । जब उस न मुझ से यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो ही  
 १२ गया पर धरधराता रहा । फिर उस ने मुझ से कहा है दानिव्येल मत डर क्योंकि जिस पहले दिन को तू ने समझने भूझने और अपने परमेश्वर के साम्हने अपने को दीन होने बनाने की और मन लगाया उसी दिन तरे वचन सुने गये और मैं तरे वचना के कारण आ गया  
 १३ हूँ । फारस के राज्य का प्रधान तो इक्कीस दिन लों मेरा साम्हना किये रहा पर मीकाएल नाम जो मुख्य प्रधानों में से है सो मेरी सहायता के लिये आया सो ऐसा होने पर फारस के राजाओं के पास मेरे रहने का प्रयाजन न  
 १४ रहा । और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अन्त के दिनों में तरे लोगों की क्या दशा होगी क्योंकि जो तू ने दर्शन पाकर देखा है सो कुछ दिनों के पीछे  
 १५ फलेगा । जब वह पुरुष मुझ से ऐसी बातें कह चुका तब मैं ने मुंह भूमि की और किया और चुपका रह  
 १६ गया । तब क्या हुआ कि मनुष्य के सन्तान के समान किसी ने मेरे हाँठ छूए और मैं मुंह खोलकर बोलने

लगा और जो मेरे सामने खड़ा था उस से कहा है मेरे प्रभु दर्शन की बातों के कारण मुझ को पीड़ा ली उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा । सो प्रभु का १७ दास अपने प्रभु के साथ क्योंकर बातें कर सके क्योंकि तब से मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस । तब मनुष्य के समान किसी ने फिर मुझे छूकर १८ मेरा हियाव बन्धाया । और कहा है अति प्रिय पुरुष १९ मत डर तुझे शान्ति मिले तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बन्धे जब उस ने यह कहा तब मैं ने हियाव बांधकर कहा है मेरे प्रभु अब कह क्योंकि तू ने मेरा हियाव बन्धाया है । उस ने कहा मैं किस कारण तरे पास आया २० हूँ सो क्या तू जानता है अब तो मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा । और जो कुछ सच्ची बातों से २१ भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है सो मैं तुझे बताता हूँ और उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मीकाएल का छोड़ मेरे संग स्थिर रहनेहारा कोई भी नहीं है ।

और दारा नाम मादी राजा के राज्य के ११. पहिले बरस में उस को हियाव बन्धाने और बल देने के लिये मैं ही खड़ा हो गया था ॥

और अब मैं तुझ को सच्ची बात बताता हूँ कि फारस २ के राज्य में अब तीन और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सभों से अधिक धनी होगा और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों का यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेंगा । उस के पीछे एक पराक्रमी राजा उठकर अपना ३ राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा । जब वह बड़ा होगा तब उस का राज्य ४ टूटगा और चारों दिशाओं की ओर बटकर अलग अलग हो जाएगा और न तो उस के राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी न उस के वंश को कुछ मिलेगा क्योंकि उस का राज्य उखड़कर उस का छोड़ और लोगों का प्राप्त ५ होगा । तब दक्खिन देश का राजा अपने एक हाकिम समेत बल पकड़ेगा वह उस से अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा यहां लों कि उस की बड़ी ही प्रभुता हो जाएगी । कई बरस के बीते पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और ६ दक्खिन देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास सत्य वाचा बांधने को आएगी पर न तो उस का बाहुबल ठहरा रहेगा और न उस के पिता का बरन वह स्त्री अपने पहुंचानेहारों और जन्मानेहारों और उस समेत भी जो ७ उन दिनों उसें संभालेगा परवश की जाएगी । फिर उस के कुल में कोई उत्पन्न होकर उस के स्थान में

- विराजमान होके सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और वहां उन से युद्ध करके प्रबल होगा ।
- ८ तब वह उन के देवताओं की दली हुई मूर्तों और सोने चांदी के मनभाऊ पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा इस के पीछे वह कुछ बरस लों उत्तर देश के
- ९ राजा की और से हाथ रोकें रहेगा । तब वह राजा दक्खिन देश के राजा के राज्य के देश में आएगा पर
- १० फिर अपने देश में लौट जाएगा । तब उस के पुत्र भगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे तब वह उमएडनेहारा नदी का नाई आ देश के बीच हांकर जाएगा फिर लौटता हुआ अपने गढ़ लों भगड़ा
- ११ मचाता जाएगा । तब दक्खिन देश का राजा चिडेंगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा और यह राजा लड़ने के लिये बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी करेगा पर वह भीड़ उस के हाथ में कर दी जाएगी ।
- १२ उस भीड़ का दूर करके उस का मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों का गिराएगा पर तौभी प्रबल न
- १३ होगा । क्योंकि उत्तर देश का राजा लाटकर पहिली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों बरन बरसों के बीत पर वह निश्चय बड़ी सेना और धन
- १४ लिये हुए आएगा । और उन दिनों में बहुत से लोग दक्खिन देश के राजा के विरुद्ध उठेगे बरन तर लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे जिस से इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी पर व ठांकर खाकर गिरेंगे ।
- १५ सो उत्तर देश का राजा आकर धुस बांधेगा और दड़ दड़ नगर ले लेगा और दक्खिन देश के न तां प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े बड़े वीर न किसी का खड़े रहने
- १६ का बल हांगा । सो उन के विरुद्ध जा आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा और उस का साम्हना करने-हारा कोई न रहेगा बरन वह हाथ में सत्यानाश लिए
- १७ हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा हांगा । तब वह अपने राज्य के सारे बल समेत कई सीधे लोगों का संग लिये हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा और उस का एक स्त्री इसलिये दी जाएगी कि बिगाड़ी जाए पर वह स्थिर न रहेगी न उस
- १८ राजा की हो जाएगी । तब वह द्वीपों की और मुंह करके बहुतां का ले लेगा पर एक सेनापति उस की की हुई नामधराई को मिटाएगा बरन पलटाकर
- १९ उसी के ऊपर लगा देगा । तब वह अपने देश

के गढ़ों की और मुंह फेरेंगा और वहां ठोकर खाकर गिरेगा और उस का पता कहीं न रहेगा । तब २० उस के स्थान में ऐसा कोई उठेगा जो शिरोमणि राज्य में बरबस करनेहारों का घुमाएगा पर धाड़े दिन बीते वह कोप वा युद्ध किये बिना नाश हांगा । फिर उस २१ के स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिस की राजप्रतिष्ठा पहिले तां न हांगी तौभी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा । तब २२ उस की भुजारूपी बाढ़ से लोग बरन वाचा का प्रधान भी उस के साम्हने से बहकर नाश होंगे । क्योंकि वह उस के २३ संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और धाड़े ही लोगों को संग लिये हुए चढ़कर प्रबल हांगा । चैन के समय वह २४ प्रान्त के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम न उस के पुरखा न उस के पुरखाओं के पुरखा भी करते थे सो वह करेगा और लुटी छिनी धन संपत्ति में बहुत बांटा करेगा और वह कुछ काल लों दड़ नगरों के लेन की कल्पना करता रहेगा । तब वह दक्खिन देश २५ के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिये हुये अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा और दक्खिन देश का राजा अत्यन्त बड़ी और सामर्था सेना लिये हुये युद्ध तो करेगा पर दहर न सकेगा क्योंकि लोग उस के विरुद्ध कल्पना करेंगे । बरन उस के भांजन के खानेहार भी उस का हर- २६ वाएंगे और यद्यपि उस की सेना बाढ़ की नाई चढ़ेगी तौभी उस के बहुत से लोग खेत रहेंगे । तब उन दानों २७ राजाओं के मन बुराई करने में लगेगे यहां लों कि व एक ही मंज पर बैठे हुए भी आपस में भूठ बोलेंगे और इस से कुछ बन न पड़ेगा क्योंकि इन सब बातों का अन्त नियत ही समय में होनेवाला है । तब उत्तर २८ देश का राजा बड़ी लूट लिये हुए अपने देश को लौटेगा और उस का मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा सो वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा । नियत समय पर वह फिर दक्खिन देश को और जाएगा २९ पर उस अगली बार के समान इस पहिली बार उस का वश न चलेगा । क्योंकि कित्तियों के जहाज उस के ३० विरुद्ध आएंगे इसलिये वह उदास हांकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा और लौटकर पवित्र वाचा के तोड़नेहारों की सुंध लेगा । तब उस के सहायक खड़े होकर दड़ पवित्र ३१ स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होमबाल को बन्द करेंगे और उजड़वानेहारी धिनीनी बस्तु का

(१) मूल में बांहे । (२) मूल में स्त्रियों की बटी ।

(३) मूल में बंद करेगा ।

(४) मूल में बांहे ।

३२ खड़ा करेंगे । और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उन को वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा पर जो लोग अपने परमेश्वर का

३३ ज्ञान रखेंगे सो हियाव बांधकर बड़े बर्म करेंगे । और लोगों के सिखानेहारे जन बहुतों को समझाएंगे पर तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बन्धुए होकर और लुटकर बहुत दिन लौ बड़े दुःख में पड़े

३४ रहेंगे । जब वे पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे तो सही पर बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर

३५ उन से मिल जाएंगे । और सिखानेहारों में से कितने जो गिरेंगे सो इसलिये गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किये जाएं यह दशा अन्त के समय ली बनी रहेगी क्योंकि इन सब बातों का

३६ अन्त नियत ही समय में होनेवाला है । सो वह राजा अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करेगा और सारे देवताओं के ऊपर अपने को ऊंचा और बड़ा ठहराएगा बरन सारे देवताओं के ऊपर जो ईश्वर है उस के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा और जब लौ परमेश्वर का कोप शान्ति न हो तब लौ उस राजा का कार्य सफल रहेगा क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है सो

३७ अवश्य ही होनेवाला है । फिर वह अपने पुरखाओं के देवताओं की भी चिन्ता न करेगा और न तो स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिन्ता करेगा न किसी देवता की बरन

३८ वह सभों के ऊपर अपने ही को बड़ा ठहराएगा । और वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सन्मान करेगा अर्थात् एक देवता का जिसे उस के पुरखा न जानते थे वह सोना चान्दी मणि और

३९ और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर सन्मान करेगा । और उस बिराने देवता के सहारे में वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उस को माने उस को वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा और ऐसे लोगों को बहनों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिये अपने देश की भूमि को

४० बांट देगा । अन्त के समय दक्खिन देश का राजा उस को सींग मारने तो लगेगा पर उत्तर देश का राजा उस पर बवण्डर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज़ संग लेकर चढ़ाई करेगा इस रीति वह बहुत से देशों में

४१ फैल जाएगा और यों निकल जाएगा । बरन वह शिरो-मणि देश में भी आएगा और बहुत से देश तो उजड़ जाएंगे पर एदोमी मोआब और मुख्य मुख्य अम्मोनी इन जातियों के देश भी उस के हाथ से बच जाएंगे ।

४२ वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश न

४३ बचेगा । बरन वह मिस्र में के सोने चान्दी के खजानों

और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूची और कूशी लोग भी उस के पीछे हो लेंगे । उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार ४४ सुनकर घबराएगा तब बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने को निकलेगा । और वह दोनों समुद्रों ४५ के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा इतना करने पर भी उस का अन्त आ जाएगा और उस का सहायक कोई न रहेगा । उसी १

१२. समय मीकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जातिभाइयों का पक्ष करने को खड़ा हुआ करता है सो खड़ा होगा और तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर तब लौ कभी न हुआ होगा पर उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम इश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं सो बच निकलेंगे । और भूमि के नीचे जो सोये रहेंगे उन में से बहुत लोग कितने तो सदा के जीवन के लिये और कितने अपनी नामधराई और सदा लौ अत्यन्त धिनौने ठहरने के लिये जाग उठेंगे । तब सिखानेहारों की चमक आकाशमण्डल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं सो सदा सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे । और हे दानियेल तू इन वचनों को अन्तसमय लौ बंद कर रख और इस पुस्तक पर छाप दे रख बहुत लोग पूछ पाछ और दूढ़ दाढ़ तो करेंगे और इस से ज्ञान बढ़ भी जाएगा ॥ २

यह सब सुन मुक्त दानियेल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है । तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए नदी के जल के ऊपर था उस से उन पुरुषों में से एक ने पूछा कि इन आश्चर्य कामों का अन्त कब लौ होगा । तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए नदी के जल के ऊपर था उस ने मेरे सुनते दहिना और बाया दोनों हाथ स्वर्ग का आर उठाकर सदा जीते रहनेहारे की यह किरिया खाई कि यह दशा साढ़े तीन ही काल लौ रहेगी और जो पवित्र प्रजा की शक्ति तोड़ते तोड़ते टूट जाएगी तब ये सब बातें पूरी होंगी । यह बात मैं सुनता तो था पर कुछ न समझा सो मैं ने कहा हे मेरे प्रभु इन बातों का अन्तफल क्या होगा । उस ने कहा हे दानियेल चला जा क्योंकि ये बातें अन्तसमय के लिये बन्द हैं और इन पर छाप दी हुई है । बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे पर दुष्ट लोग ५ ६ ७ ८ ९ १०

(१) मृत में धूल की भूमि में ।



दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा पर सिग्वानेहारे समझेंगे । और जब से नित्य होमबलि उठाई जाएगी और उजड़वानेहारी घिनौनी वस्तु स्थापित की जाएगी तब से बारह सौ नव्वे दिन

बीतेंगे । क्या ही धन्य वह होगा जो धीरज धरके तेरह १२ सौ पैंतीस दिन के अंत लों भी पहुंचे । सो तू जाकर १३ अन्त लों ठहरा रह तब लों तू विश्राम करता रहेगा फिर उन दिनों के अन्त में निज भाग पर खड़ा होगा ॥

## होशे ।

### १. यहूदा के राजा उज्रिय्याह योताम आहाज और हिजकिय्याह

और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा ॥

- २ जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहिले पहिल बातें की तब उस ने होशे से यह कहा कि जाकर एक वेश्या का अपनी स्त्री और उस के कुकर्म के लड़केबालों को अपने लड़केबाले कर ले क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे हो चलना छोड़कर वेश्या का सा काम बहुत करता रहा है । सो उस ने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी स्त्री कर लिया और वह उस से गर्भवती होकर
- ४ एक पुत्र जनी । तब यहोवा ने उस से कहा इस का नाम यिज्जेल रख क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को यिज्जेल के खून का दण्ड दूंगा और इस्राएल के घराने के राज्य का अन्त कर दूंगा । और उस समय मैं यिज्जेल की तराई में इस्राएल के धनुष को
- ६ तोड़ डालूंगा । और वह स्त्री फिर गर्भवती होकर एक
- ८ बेटी जनी तब यहोवा ने होशे से कहा उस का नाम लोरुहामा रख क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उन का अपराध किसी प्रकार से क्षमा
- ७ न करूंगा । परन्तु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उन का उद्धार करूंगा धनुष वा तलवार वा युद्ध वा घाड़ों वा सवारों के द्वारा नहीं परन्तु उन के परमेश्वर
- ८ यहांवा के द्वारा उन का उद्धार करूंगा । जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया तब वह गर्भवती होकर एक
- ९ पुत्र जनी । तब यहोवा ने कहा इस का नाम लोरुहामी रख क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम लोगों का रहूंगा ॥

- (१) अर्थात् ईश्वर बोध्या वा तिसर वितर करेगा यिज्जेल एक नगर का भी नाम है । (२) अर्थात् जिस पर दया नहीं हुई । (३) अर्थात् मेरी प्रजा नहीं ।

तौभी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू १० की सी हो जाएगी जिन का मापना गिनना अनहोना है और जिस स्थान में उन से यह कहा जाता है कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो उसी स्थान में वे जीवते ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे । तब यहूदी और इस्राएली दोनों ११ इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले २. आएंगे क्योंकि यिज्जेल का दिन प्रसिद्ध होगा । सो तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रहामा कहो ॥

अपनी माता से विवाद करो विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उस का पति हूँ वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे । नहीं तो मैं उस के वस्त्र उतारकर उस को जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उस को जङ्गल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और प्यास से मार डालूंगा । और उस के लड़केबालों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं । अर्थात् उन की माता ने छिनाला किया जिस के गर्भ में वे पड़े उस ने लजा के योग्य काम किया उस ने कहा कि मेरे यार जो मेरी रोटी पानी उन सन तेल और मद्य देते हैं उन्हीं के पीछे मैं चलूंगी । इसलिये सुनो मैं उस के मार्ग को कांटों से रूंधूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी । और वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हीं जान लेगी और उन्हीं दूढ़ने से भी न पाएगी तब वह कहेगी मैं अपने पहिले पति के पास फिर जाऊंगी क्योंकि मेरी पहिली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी । वह तो नहीं जानती कि अन्न नया दाखमधु और तेल मैं ही उसे देता हूँ और उस के लिये वह चांदी

- (४) मूल में बड़ा । (५) अर्थात् मेरी प्रजा । (६) अर्थात् जिस पर दया हुई है ।

- सोना जिस को वे बाल देवता के काम में ले आते हैं मैं ही बढ़ाता हूँ । इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नये दाखमधु के होने के समय में अपने नये दाखमधु को हर लूंगा और अपना ऊन और सन भी जिन से वह अपना तन ढांपती हैं छीन लूंगा ।
- १० और अब मैं उस के यारों के साम्हने उस के तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोऽ उसे न छुड़ा सकेगा ।
- ११ और मैं उस के पर्व्व नये चांद और विश्रामर्दन आदि
- १२ सब नियत समयों के उत्सव को उठा दूंगा । और मैं उस की दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को जिन के विषय यह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है ऐसा विगाड़ूंगा कि वे जङ्गल से हं जाएंगे और बनैले पशु उन्हें चर डालेंगे ।
- १३ और वे दिन जिन में वह बाल देवताओं के लिये धूप जलाती और नरथ और द्वार पहिने अपने यारों के पीछे जाती और मुझ को भूले रहती थी उन दिनों का दण्ड मैं उसे दूंगा यहोवा की यही वाणी है । इसलिये देखो मैं उसे मोहित करके जङ्गल में ले जाऊंगा और
- १५ वहां उस से शांति की बातें कहूंगा । और मैं उस को दाख की बारियां वहीं<sup>१</sup> दूंगा और आकार<sup>२</sup> की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वहां वह मुझ से ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात् मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी ।
- १६ और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे
- १७ ईशी<sup>३</sup> कहेगी और फिर वाली न कहेगी । क्योंकि मैं उसे बाल देवताओं के नाम आगे को लेने न दूंगा और न
- १८ उन के नाम फिर स्मरण में रहेंगे । और उस समय मैं उन के लिये बनैले पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगनेहारे जन्तुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उन के देश से दूर कर दूंगा और ऐसा करूंगा कि वे लोग
- १९ निडर सोया करेंगे । और मैं तुझे सदा के १०<sup>४</sup>ये अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा ।
- २० और ये सच्चाई के साथ भी की जाएगी और तू
- २१ यहोवा का ज्ञान पाएगी । और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तो आकाश की सुनकर उस को उत्तर
- २२ दूंगा और वह पृथिवी की सुनकर उस को उत्तर देगा । और पृथिवी अन्न नये दाखमधु और टटके तेल की सुनकर
- २३ उन को उत्तर देगी और वे यिज्जेल को उत्तर देंगे । और

मैं अपने लिये उस को देश में बाऊंगा और लोह-हामा पर दया करूंगा और लोअम्मी से कहूंगा कि तू मेरी प्रजा है और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर ॥

३. फिर यहोवा ने मुझ से कहा अब जाकर ऐसी एक स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिन होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवताओं की ओर फिरते और दाख की टिकियों में प्रीति रखते हैं तौभी यहोवा उन से प्रीति रखता है । सो मैं ने एक स्त्री को चांदी के पन्द्रह टुकड़े और डेढ़ होमेर जव देकर मोल लिया । और मैं ने उस से कहा तू बहुत दिन लों मेरे लिये बैठी रहना और न तो छिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना और मैं भी तेरे लिये ऐसा ही रहूंगा । क्योंकि इस्राएली बहुत दिन लों बिना राजा बिना हाकिम बिना यज्ञ बिना लाठ और बिना एपोद वा गृह देवताओं के बैठे रहेंगे । उस के पीछे वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर दूढ़ने लगेंगे और अन्त के दिनों में यहोवा के पास और उस की उत्तम वस्तुओं के लिये थरथराते हुए आएंगे ॥

४. हे इस्राएलियो यहोवा का वचन सुनो यहोवा का इस देश के वासियों के साथ मुकद्दमा है क्योंकि इस में न तो कुछ सच्चाई है और न कुछ करुणा न कुछ परमेश्वर का ज्ञान है । खाप देने भूठ बोलने वध करने चुराने व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर निकल गये और खून ही खून होता रहता है । इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जन्तुओं और आकाश के पक्षियों समेत उस के सब निवासी कुम्हला जाएंगे समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएंगी । देखो कोई वाद विवाद न करे न कोई उलहना दे क्योंकि तेरे लोग तो याजक से वाद विवाद करनेहारों के समान हैं । तू दिनदुपहरी ठोकर खाएगा और रात को नबी भी तेरे साथ ठोकर खाएगा और मैं तेरी माता को नाश करूंगा । मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो गई तू ने जो मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है इसलिये मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा और तू ने जो अपने परमेश्वर की व्यवस्था को बिसराया है इसलिये मैं भी तेरे लड़केवालों को बिसराऊंगा ।

(१) मूल में वहीं से । (२) अर्थात् कष्ट । (३) अर्थात् मेरे पति ।

(४) मूल में लोह को लोह पड़वाता है ।

- ७ जैसे जैसे वे बढ़ते गये जैसे जैसे वे मेरे विरुद्ध पाप करते गये मैं उन के विभव के पलटे उन का अना-  
 ८ दर करूंगा । वे मेरी प्रजा के पापबलियों को खाते हैं  
 ९ और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं । सो प्रजा की जो दशा होगी वही याजक की भी होगी और मैं उन के चालचलन का दण्ड दूंगा और उन के कामों  
 १० का बदला उन को दूंगा । वे खाएंगे तो पर तुम न होंगे और वेश्यागमन तो करेंगे पर न बढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है ।  
 ११ वेश्यागमन और दाखमधु और टटका दाखमधु ये तीनों  
 १२ बुद्धि<sup>१</sup> को भ्रष्ट करते हैं । मेरी प्रजा के लोग अपने काठ से प्रश्न करते हैं और उन की छड़ी उन को बताती है क्योंकि छिनाला करानेहारे आत्मा ने उन्हें बहकाया और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला  
 १३ करते हैं । बांज चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया जो अच्छी होती है इसलिये वे उन के तले पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते और टीलों पर धूप जलाते हैं इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारी बहुएं  
 १४ व्यभिचारिन हो गई हैं । चाहे तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करें तौभी मैं उन को दण्ड न दूंगा क्योंकि वे आप ही वेश्याओं के साथ एकान्त में जाते और देवदासियों के साथ होकर यज्ञ करते हैं और वे लोग जो समझ नहीं रखते सो गिरा  
 १५ दिये जाएंगे । हे इस्राएल यद्यपि तू छिनाला करता है तौभी यहूदा दापी न बने न तो गिलगाल को आओ और न बेतावेन को चढ़ आओ और न यह कहकर  
 १६ किरिया खाओ कि यहोवा के जीवन की सोह । क्योंकि इस्राएल ने हठीली कलोर की नाई हठ किया है सो अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे की नाई लंबे चौड़े मैदान  
 १७ में चराएगा । एप्रैम तो मूरतों का संगी हो गया है  
 १८ सो उस को रहने दे । जय पिलौवल कर चुकते हैं तब वेश्यागमन करने में लग जाते हैं उन के प्रधान  
 १९ लोग निरादर होने में अति प्रीति रखने हैं । आंधी उन को अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी और उन के बलिदानों के कारण उन की आशा टूट जाएगी ॥

५. हे याजको यह बात सुनो और हे इस्राएल के सारे घराने ध्यान देकर सुनो

और हे राजा के घराने तुम कान लगाओ क्योंकि तुम पर न्याय किया जाएगा क्योंकि तुम मिसपा में रुन्दा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गये हो ।

उन धिगड़े हुआओं ने चोर हत्या की है<sup>२</sup> सो मैं उन २  
 सभी को ताड़ना दूंगा । मैं एप्रैम का भेद जानता हूँ ३  
 और इस्राएल की दशा मुझ से छिपी नहीं है हे एप्रैम  
 तू ने छिनाला किया और इस्राएल अशुद्ध हुआ है ।  
 उन के काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं ४  
 देते क्योंकि छिनाला करानेहारा आत्मा उन में रहता  
 है और यहोवा का ज्ञान उन में नहीं रहा । और ५  
 इस्राएल का गर्व उस के साम्हने ही साक्षी देता है  
 और इस्राएल और एप्रैम अपने अधर्म के कारण ठोकर  
 खाएंगे और यहूदा भी उन के संग ठोकर खाएगा ।  
 वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा ६  
 को दूढ़ने चलोंगे पर वह उन को न मिलेगा क्योंकि वह  
 उन के पास से अन्तर्धान हो जाएगा । वे जो व्यभिचार ७  
 के लड़के जनीं इस में यहोवा का विश्वासघात किया  
 इस कारण अब चांद उन के और उन के भागों के नाश  
 का कारण होगा ॥

गिबा में नरमिगा और रामा में तुरही फूँके बेतावेन ८  
 में ललकार कर कहा कि हे विन्यामीन अपने पीछे ९  
 देख । एप्रैम न्याय के दिन में उजाड़ हो जाएगा जिस  
 बात का होना ठाना गया है उसी का सन्देश मैं ने  
 इस्राएल के सब गोत्रों को दिया है । यहूदा के हाकिम १०  
 उन के समान हुए हैं जो सिवाना बड़ा लेते हैं मैं उन  
 पर अपनी जलजलाहट जल की नाई उगडेलूंगा ।  
 एप्रैम पर अंधेर किया गया है और वह मुकद्दमा हार ११  
 गया है क्योंकि वह उस आज्ञा के अनुसार जी लगाकर  
 चला । सो मैं एप्रैम के लिये कीड़े और यहूदा के १२  
 घराने के लिये सड़ाहट के समान हूंगा । जब एप्रैम ने १३  
 अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा तब एप्रैम  
 अशशूर के पास गया और यारेब<sup>३</sup> राजा से कहला भेजा  
 पर वह न तुम को चंगा न तुम्हारा घाव अच्छा कर  
 सकता है । मैं एप्रैम के लिये सिंह और यहूदा के घराने १४  
 के लिये जवान सिंह बनूंगा मैं आप ही उन्हें फाड़कर  
 ले जाऊंगा और जब मैं उठा ले जाऊंगा तब मेरे पंजे  
 से कोई छुड़ा न सकेगा । जय लो वे अपने को अपराधी १५  
 मानकर मेरे दर्शन के खोजी न हो तब लो मैं जाकर  
 अपने स्थान को लौटूंगा जब वे मंकट में पड़ेंगे तब  
 जी लगाकर मुके दूढ़ने लगेंगे ॥

६. चलो हम यहोवा की ओर फिरें क्योंकि  
 उसी ने फाड़ा और वही चंगा  
 भी करेगा उसी ने मारा और वही हमारे घावों

- २ पर-पट्टी बांधेगा । दो दिन के पीछे वह हम को जिला-  
एगा तीसरे दिन वह हम को उठाकर खड़ा करेगा तब  
३ हम उस के सन्मुख जीते रहेंगे । आओ हम ज्ञान हूँडे  
बरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये बड़ा यत्न भी  
करें । क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सा  
निश्चित है और वह हमारे ऊपर वर्षा की नाई बरन  
बरसात के अत की वर्षा के समान जिस से भूमि  
सिंचती आएगा ॥
- ४ हे एप्रैम मैं तुझ से क्या करूं हे यहूदा मैं तुझ  
से क्या करूं तुम्हारा स्नेह तो भोर के मध  
और सवेरे उड़ जानेवाली आंस के समान है ।
- ५ इस कारण मैं ने नवियों के द्वारा उन पर मानो  
कुल्हाड़ा चलाई और अपने वचनों से उन को घात  
किया और तरे नियम प्रकाश सरीखे प्रगट होंगे ।
- ६ मैं तो बलिदान से नहीं कृपा ही से प्रसन्न होता  
हूँ और होमयलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग  
७ परमेश्वर का ज्ञान रक्खें । पर उन लोगों ने आदम  
की नाई वाचा का तोड़ दिया उन्हों ने यहां मुझ से  
८ विश्वासघात किया है । गिलाद नाम गड़ी तो अनर्थकारियों  
९ से भरी है वह खून से भरी हुई है । और जैसे डाकुओं  
के दल किसी के घात में बैठते हैं वैसे ही याजकों का  
दल शकैम के मार्ग में वध करता है बरन उन्हों ने  
१० महापाप भी किया है । इस्राएल के घराने में मैं ने रोए  
खड़ होने का कारण देखा है उस में एप्रैम का छिनाला  
११ और इस्राएल की अशुद्धता पई जागी है । फिर हे यहूदा  
जब मैं अपनी प्रजा का बन्धुआई से लौटा ले आऊंगा  
उस समय के लिये तरे निमित्त भी पलटा ठहराया  
हुआ है ॥

## ७. जब जब मैं इस्राएल को चंगा करना

- चाहता हूँ तब तब एप्रैम का  
अधर्म और शोमरान की बुराइयां प्रगट हो जा ॥ हैं  
वे छल से काम करते हैं चोर तो भीतर घुसता और  
२ डाकुओं का दल बाहर छाड़ छीन लेता है । और वे  
नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण  
रखता है सो अब वे अपने कामों के जाल में फसंगे  
३ क्योंकि उन के कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं । वे राजा को  
बुराई करने से और और हाकिमों को भूठ बालने से  
४ आनन्दित करते हैं । वे सब के सब व्यभिचारी हैं वे उस  
तंदूर के समान हैं जिस को पकानेहारा गर्म तो करता  
है पर जब लौ आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से

(१) मूल में पांड्या भी करे ।

(२) मूल में निकलनेवाले हैं ।

- फूल नहीं चुकता तब लौ वह आग को नहीं उसकात्त ।  
हमारे राजा के जन्म दिन दाखमधु पीकर चूर हुए उस ने ५  
ठट्टा करनेहारों से अपना हाथ मिलाया । जब लौ वे घात ६  
लगाये बैठे रहते हैं तब लौ वे अपना मन तंदूर की  
नाई तैयार किये रहते हैं उन का पकानेहारा रात भर  
सोता पर भोर को तंदूर धधकती लौ से लाल हो  
जाता है । वे सब के सब तंदूर की नाई धधकते और ७  
अपने न्यायियों का भस्म करते हैं उन के सब राजा  
मारे गये हैं उन में से कोई नहीं है जो मेरी दाहाई  
देता हो । एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला ८  
रहता है एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उलटा न गई  
हो । परदेशियों ने उस का बल तोड़ डाला पर वह ९  
इसे नहीं जानता और उस के सिर में कहीं कहीं पक्के  
बाल हैं पर वह इसे भी नहीं जानता । और इस्राएल १०  
का गर्व उस के साम्हने ही सादा देता है यहां लौ कि  
वे इन सब बातों के रहते न तो अपने परमेश्वर यहोवा  
की आर फिर न उस का हूडा है । और एप्रैम भाली ११  
पिएडुकी के समान हो गया है जिस को कुछ थुद्ध  
नहीं वे मिस्त्रियों की दाहाई देते वे अशरूर का चले  
जाते हैं । जब जब वे जाएं तब तब में उन के ऊपर १२  
अपना जाल फैलाऊंगा और उन्हें ऐसा खीच लूंगा  
जैसे आकाश के पत्ती खींच जाते हैं में उन का ऐसा  
ताड़ना दूंगा जैसी उन को मण्डली सुन चुकी है । उन १३  
पर हाय क्योंकि वे मेरे पास से भटक गये उन का  
सन्धानाश होए क्योंकि उन्हों ने मुझ से बलवा किया है  
मैं तो उन्हें छुड़ाता आया पर वे मुझ से भूठ बालते  
आये हैं । वे मेरी दाहाई मन से नहीं देते पर अपने १४  
बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं वे अन्न और  
नये दाखमधु पाने के लिये भीड़ लगाते हैं और मुझ  
से हट जाते हैं । मैं तो उन का शिक्षा देता और उन १५  
की भुजाओं को बलवन्त करता आया हूँ पर वे मेरे  
विरुद्ध बुरी कल्पना करते आये हैं । वे फिर तो हैं पर १६  
परमप्रधान को और नहीं वे धोखा देनेहार धनुष के  
समान हैं इसलिये उन के हाकिम अपना क्रोधभरी  
बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे । इस दश में  
उन के ठट्टों में उड़ये जाने का यही कारण होगा ॥

## ८. अपने मुंह में नरसिंगा लगा । वह

- उकाव की नाई यहोवा के  
घर पर भपटेगा इसलिये कि मेरे घर के लोगों ने मेरी  
वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था उल्लंघन की है । वे २

(३) मूल में खा तो लिया ।

३ मुझ को पुकारकर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर हम  
 ४ इस्राएली लोग तुम्हें जानते हैं । पर इस्राएल ने भलाई  
 के मन से उतार दिया है शत्रु उस के पीछे पड़ेगा ।  
 ५ वे राजाओं का ठहराते तो आये पर मेरी इच्छा से  
 नहीं वे हाकिमों का भां ठहराते तो आये पर मेरे अन-  
 जाने उन्हो ने अपना सेना चान्दी लेकर मूर्तें बना  
 ६ लीं इसलिये कि वे नाश हो जाए । हे शामरोन उस  
 ने तेरे बड़ड़े का मन से उतार दिया है मेरा काप उन पर  
 ७ भड़का वे कब लौं निर्दोष धाने में बलम्ब करेंगे । यह तो  
 इस्राएल से हुआ है वह कारागर से बना और परमेश्वर  
 नहीं हे इस कारण शामरोन का वह बड़ड़ा टुकड़े  
 ८ टुकड़े हो जाएगा । वे तो वायु बोते हैं और बवण्डर  
 लवेंगे उस के लिये कुछ खेत रहगा नहीं उन की उगती  
 से कुछ आटा न हागा और यदि हो तो परदशी उस  
 ९ को खा डालेंगे । इस्राएल निगला गया अब वे अन्य-  
 जातियों में ऐसे निकम्ब ठहरे जसा तुच्छ बरतन ठहरता  
 १० है । क्योंकि वे अशूर का एस चले गये हैं जसा  
 बनेला गदहा भुण्ड से बिजुर के रक्ता एप्रैम ने यारों  
 ११ का मजुरी पर रक्खा है । यद्यपि वे अन्य जातियों में से  
 मजूर कर रखें तो भी मैं उन का इकट्ठा करूंगा  
 और वे हाकिमों के राजा के बाभ के कारण घटने  
 १२ लगेंगे । एप्रैम ने पाप करने का बहुत ही वेदियां  
 बनाई है और वे वेदियां उस के पापी ठहरने का कारण  
 १३ भी ठहरां । मैं तो उस के लिये अपना व्यवस्था की  
 लाखा बातें लिखता आता हूं पर वे इन्हें विरानी सम-  
 १४ भत है । वे मेरे लिये बलिदान करते हैं तब पशु बलि  
 करते तां हैं पर उस का फल मास ही है वे तो खाते हैं  
 पर यहावा उन से प्रसन्न नहीं होता अब वह उन के  
 अधर्म की सुधि लेकर उन के पाप का दण्ड देगा वे  
 १५ मिस्र में लौट जाएंगे । इस्राएल ने अपने कर्ता को  
 बिसरा कर मन्दिर बनाये और यहूदा ने बहुत से गड़-  
 बाले नगरों को बसाया है पर मैं उन के नगरों में आग  
 लगाऊंगा जिस से उन के महल भस्म हो जाएंगे ॥

६. हे इस्राएल तू देश देश के लोगों की नाई

आनन्द में मगन मत हो क्योंकि  
 तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी तू ने अन्न  
 के एक एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनन्द  
 २ से ली है । वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे  
 और न कुण्ड के दाखमधु से और नये दाखमधु के  
 ३ घटने से वे धोखा खाएंगे । वे यहावा के देश में रहने न  
 पाएंगे पर एप्रैम मिस्र में लौट जाएगा और वे अशूर  
 ४ में अशुद्ध अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे । वे यहावा के लिये

दाखमधु अर्घ जानकर न देंगे न उन के बलिदान उस  
 के भाएगे बरन शोक करनेहारों की सी भोजनवस्तु  
 ठहरेंगे जितने उस से खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे उन  
 की भोजनवस्तु उन का भूख बुझाने ही के लिये होगी  
 वह यहावा के भवन में न आ सकेगी । नियत समय के ५  
 पर्व और यहावा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे ।  
 देखो वे सत्यानाश हाने के डर के मारे चले गये पर वहा मर ६  
 जाएंगे और मिस्री उन की लांथें इकट्ठी करेंगे और मोप  
 के निवासी उन को मिस्री देंगे उन की मनभावनी चांदी  
 की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेंगी और उन के  
 तंबुओं में भड़बरी उगगी । दण्ड के दिन आये हैं पलटा ७  
 लेने के दिन आये हैं और इस्राएल यह जान लेगा उन  
 के बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण नहीं तो  
 मूल और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला  
 ठहरगा ॥

एप्रैम मेरे परमेश्वर के संग एक पहरुआ तो है ८  
 नवी के सब मार्गों में बहेलिये का फन्दा लगा और उस  
 के परमेश्वर के घर में बैर हुआ है । वे गिबा के दिनों ९  
 की भांति अत्यन्त बिगड़े हुए हैं सो वह उन के अधर्म  
 की सुधि लेकर उन के पाप का दण्ड देगा ॥

मैं ने इस्राएल को ऐसा पाया था जैसा कोई जंगल १०  
 में दाख पाए और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की थी  
 जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है पर उन्हीं  
 ने पार के बाल के पास जाकर अपने तई उस वस्तु को  
 अर्पण कर दिया जो लज्जा का कारण है और जिस से वे  
 मोहित हो गये थे उस के समान घिनौने हो गये । एप्रैम ११  
 जो है उस का विभव पत्नी की नाई उड़ जाएगा न तो  
 किसी का जन्म हागा न किसी का गर्भ रहगा और न कोई  
 स्त्रा गर्भवती हागी । चाहे वे अपने लड़केवालों का पोस- १२  
 कर बड़े भी करें तो भी मैं उन्हें यहा ला । नर्वेश करूंगा  
 कि कोई न रह जाएगा और जब मैं उन से दूर हो १३  
 जाऊंगा तब उन पर हाय हागी । जैसा मैं ने सार को  
 देखा वैसा एप्रैम को भी मनभाऊ स्थान में बसा हुआ  
 देखा तो भी उसे अपने लड़केवालों के घातक के लिये  
 निकालना पड़ेगा ॥

हे यहावा उन को दण्ड दे तू क्या देगा यह कि १४  
 उन की स्त्रियों के गर्भ गिर जाए और स्तन सूख  
 जाए ॥

उन की सारी बुराई गिल्गाल में है सो वही मैं ने १५  
 उन से घिन की उन के बुरे कामों के कारण मैं उन को

- अपने घर से निकाल दूंगा और उन से फिर प्रीति न रखूंगा क्योंकि उन के सब हाकिम बलवा करनेहारे १६ हैं। एप्रैम मारा हुआ है उन की जड़ सूख गई उन में फल न लगेगा और चाहे उन की स्त्रियां जनें भी तौभी मैं उन के जने हुए दुलारों को मार डालूंगा ॥
- १७ मेरा परमेश्वर उन को निकम्मा टहराएगा क्योंकि उन्होंने ने उस की नहीं सुनी वे अन्यजातियों के बीच मारे मारे फिरनेहारे होंगे ॥

### १०. इस्राएल एक लहलहाती हुई दाख-लता सा है जिस में बहुत से

- फल भी लगे पर ज्यों ज्यों उस के फल बढ़ें त्यों त्यों उस ने अधिक वेदियां बनाईं जैसे जैसे उस की भूमि सुधरती २ आई वैसे वैसे वे सुन्दर लाठें बनाते आये। उन का मन बड़ा हुआ है अब वे दोषी ठहरेंगे वह उन की वेदियों का ताड़ डालेगा और उन की लाठों को टुकड़े ३ टुकड़े करेगा। अब तो वे कहेंगे कि हमारे कोई राजा नहीं है कारण यह है कि हम ने यहाँवा का भय नहीं ४ माना सो राजा हमारे लिये क्या कर सकता। वे बातें ही करके और झूठी कियारिया खाकर वाचा बाधत हैं इस कारण खेत की रेषारियों में धतूर की नाईं दण्ड ५ फूले फलेगा। शोमरोन के निवासी बेतावन के बल्लुड़े के लिये डरते रहेंगे और उस के लाग उस के लिये विलाप करेंगे और उस के पुजारी जो उस के कारण भगन होते थे सो उस के प्रताप के लिये इस कारण विलाप ६ करेंगे कि वह उस में से उठ गया है। वह यारबः राजा की मेंट ठहरने के लिये अश्शूर देश में पहुँचाया जाएगा एप्रैम लजित होगा और इस्राएल भी अपनी युक्ति से ७ लजाएगा। शोमरोन अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाह मिट जाएगा। और आवेन में के ऊँच स्थान जो इस्राएल का पाप है सो नाश होंगे और उन की वेदियों पर झड़बेरी पेड़ और ऊटकटार उगेंगे उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम को छिपा लो और ९ टीलों से कि हम पर गिर पड़े। हे इस्राएल तू गिन्ना के दिनों से पाप करता आया है उस में वे रह क्या वे १० कुटिल मनुष्यों के संग की लड़ाई में न फँसेंगे। जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा और देश देश के लोग उन के विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे इसलिये कि वे अपने दोनों अधर्मों के संग जुते हुए हैं। ११ और एप्रैम सीखी हुई बड़िया है जो अब दावन से

(१) मूल में को तू बड़ियों। (२) अर्थात् भगवनेहारे।

प्रसन्न होती है पर मैं ने उस की सुन्दर गर्दन पर जूआ रक्खा है मैं एप्रैम पर सवार चढ़ाऊंगा और यहूदा हल और याकूब होगा खींचेगा। धर्म का बीज बोओ १२ तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे अपनी पड़ती भूमि को जोता देखो अब यहाँवा के पीछे हो लेने का समय है जब लो कि वह आकर तुम्हारे ऊपर धर्म न बरसाए। तुम ने दुष्टता के लिये हल जोता और १३ अन्याय का खेत काटा और धोखे का फल खाया है और यह इसलिये हुआ कि तुम ने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रक्खा था। इस कारण तरे लागों में हुल्लड़ उठेगा और तरे सब गढ़ १४ ऐसे नाश किये जाएंगे जैसा बंतवेल नगर युद्ध के समय शलमन से नाश किया गया और उस समय माता अपने बच्चों समेत पटक दी गई थीं। इसी प्रकार का १५ व्यवहार बेतल भी तुम से तुम्हारी अत्यन्त बुराई के कारण करेगा भार हाँते इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा ॥

### ११. जब इस्राएल लड़का था तब मैं ने उस से प्रेम किया और अपने पुत्र को

मिस्र से बुला लाया। पर जैसे वे उन को बुलाते थे वैसे २ वे उन के साम्हने से भागे जाते थे वे बाल देवताओं के लिये बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिये धूप जलाते गये। और मैं एप्रैम को पाव पाव चलाता था ३ और उन को गोद में लिये फिरता था पर वे न जानते थे कि उस का चंगा करनहारा मैं हूँ। मैं उन को मनुष्य ४ जानकर प्रेम की सी डोरी से खींचता था और जैसा कोई बैल के गले की जात खालकर उस के साम्हने आहार रख दे वैसे ही मैं ने उन से किया। वह मिस्र ५ देश में लाटने न पाएगा अश्शूर ही उस का राजा होगा क्योंकि उस ने मेरी और फिरने का नकारा है। और तलवार उस के नगरों में चलेगी और उन के बैदों ६ का पूरा नाश करेगी और यह उन की युक्तियों के कारण से होगा। मेरी प्रजा मुझ से फिर जाने में लगी रहती है यद्यपि वे उन को परमप्रधान की आर बुलाते हैं ७ तौभी उन में से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे एप्रैम मैं तुम्हें क्योंकि छोड़ दूँ हे इस्राएल मैं तुम्हें ८ शपथ वश क्योंकि कर दूँ मैं तुम्हें क्योंकि अदमा की नाईं छोड़ दूँ और सवायीम के समान कर दूँ मेरा हृदय तो उलट पुलट गया मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने कोप को भड़कने न दूंगा और न मैं ९ फिर कर एप्रैम को नाश करूंगा क्योंकि मैं मनुष्य नहीं

(३) मूल में मेरे पदतापे एक संग उबले हैं।

- ईश्वर हूँ मैं तेरे बीच में रहनेहारा पवित्र हूँ मैं क्रोध करके  
 १० न आऊंगा । वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे वह तो सिंह की नाईं गरजगा और लड़के पच्छिम दिशा से  
 ११ यथराते हुए आएंगे । वे मिस्र से चिड़ियों की नाईं और अशूर के देश से पिण्डुकी की भांति यथराते हुए आएंगे और मैं उन को उन्हीं के घरों में बसा दूंगा यहांवा की यही वाणी है ॥
- १२ एप्रैम ने मिथ्या से और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रक्खा है और यहूदा अब लों पवित्र और विश्वासयोग्य ईश्वर की ओर चंचल बना रहता है ।
- १ १२. एप्रैम पानी पीटते और पुरवाई का पीछा करता रहता है वह लगातार झूठ और उल्हात को बढ़ाता रहता है वे अशूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं ॥
- २ यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकद्दमा है और वह याकूब को उस के चालचलन के अनुसार दण्ड देगा उस के कामों के अनुसार वह उस को बदला देगा ।
- ३ अपनी माता की काख ही में उस ने अपने भाई को अड़झा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा । अर्थात् वह दूत से लड़ा और जीत भी गया वह रोया और उस से गिड़गिड़ाकर विनती का बेंतल में भी वह उस को मिला और वहीं हम से उस ने बातें की, अर्थात् यहोवा सेनाओं के परमेश्वर ने जिस का स्मरण यहोवा नाम से होता है । इसलिये अपने परमेश्वर की ओर फिर और कृपा और न्याय के काम करता रह और अपने परमेश्वर की बात निरन्तर जोहता रह ॥
- ७ वह बनिया है और उस के हाथ छल का तराजू है अंधेर ही करना उस का भाता है । और एप्रैम कहता है कि मैं धनी हो गया मैं ने संभक्ति प्राप्त की है मेरे सब कामों में से किसी में ऐसा अधर्म न पाया जाएगा
- ९ जिस से पाप लगे । मैं यहोवा तो मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ मैं तुझे फिर तम्बुओं में ऐसा बसाऊंगा
- १० जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है । मैं नबियों से बातें करता और बार बार दर्शन देता और नबियों के द्वारा दृष्टान्त कहता आया हूँ । क्या गिलाद अनर्थकारी नहीं है वे तो पूरे धोखेबाज हो गये हैं गिलगाल में बैल बलि किये जाते हैं बरन उन की बंदियां उन डेरों के समान हैं जो खेत की रेधारियों के पास हों । और याकूब अराम के मैदान में भाग गया था वहां इस्राएल ने स्त्री के लिये सेवा की स्त्री के लिये वह चरवाही करता था । और एक नबी के द्वारा यहोवा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आया और नबी ही के द्वारा उस की रक्षा

हुई । एप्रैम ने अत्यन्त रिस दिलाई है सो उस का किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा और उस ने अपने प्रभु के नाम में जो बड़ा लगाया है सो उसी को लौटाया जाएगा ॥

### १३. जब एप्रैम बोलता था तब लोग कांते थे और वह इस्राएल में

बड़ा था पर जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया । और अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाई हैं जो सब की सब कारगरों ही से बनी और उन्हीं के विषय लोग कहते हैं कि जो नरमेध करें वे बछड़ों को चूमें । इस कारण वे भोर के मेघ और तड़के सूख जानेहारी आस और खालहान पर से आंधी के मारे उड़ानेहारी भूसी और धुआरे से नकलते हुए धूप के समान होंगे । मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जाने क्योंकि मेरे बिना तेरा कोई उद्धारकर्त्ता नहीं है । मैं ने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में बरन अत्यन्त सूखे देश में था । जैसे इस्राएल चराये जाते वैसे ही वे तृप्त होते जाते थे और तृप्त होने पर उन का मन घमण्ड से भरता था इस कारण वे मुझ को भूल गये । इस कारण मैं उन के लिये सिंह सा बना हूँ मैं चांते की नाईं उन के मार्ग में घात लगाये रहूंगा । मैं बच्चे छिनी हुई रीछुनी के समान बनकर उन को मिलूंगा और उन के हृदय का भिल्ली को फाड़ूंगा और वहीं सिंह की नाईं उन को खा डालूंगा बनेला पशु उन को फाड़ डालेगा । हे इस्राएल तेंर विनाश का कारण यह है कि तू मुझ अपने सहायक के विरुद्ध है । अब तेरा राजा कहां रहा कि वह तेंर सब नगरों में तुझे बचाए और तेरे न्यायी कहां रहे जिन के विषय तू ने कहा था कि राजा और हाकिम मेरे लिये ठहरा दे । मैं ने केप में आकर तेरे लिये राजा बनाया और फिर जलजलाहट में आकर उस का उठा भी दिया । एप्रैम का अधर्म गठा हुआ है उस का पाप संचय किया हुआ है । उस का जननेहारी की सी पीड़ें उठेंगी वह तो निर्बुद्धि लड़का है जो जनने के समय ठीक से आता नहीं । मैं उस को अधोलोक के बश से छुड़ा लूंगा मैं मृत्यु से उस को छुटकारा दूंगा हे मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहां रही हे अधोलोक तेरी नाश करने का शक्ति कहां रही मैं फिर

(१) मूल में लड़कों के इट पड़ने के स्थान में ।

(२) मूल में तेरी मरियां ।

१५ कभी पकूताऊंगा नहीं। चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फले फले तौभी पुरवाई उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से पवन जंगल से आएगा और उस का कुण्ड सूखेगा और उस का सोता निर्जल हो जाएगा और वह उस का रखली हुई सब मनभावनी वस्तुएं लूट ले जाएगा। शोमरोन दोषी ठहरेगा क्योंकि उस ने अपने परमेश्वर से बलवा किया है वे तलवार से मारे जाएंगे और उन के बच्चे पटक जायेंगे और उन की गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी ॥

१४. हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास फिर आ क्योंकि तू ने अपने अधर्म के कारण ठांकर खाई है। बातें सीखकर और यहोवा की ओर फिरकर उस से कहो कि सारा अधर्म दूर कर जो भला ही सो ग्रहण कर तब हम धन्यवाद-रूपी बलि चढ़ाएंगे। अशशूर हमारा उद्धार न करेगा हम

(१) मूल में अपने साथ बातें लो।

(२) मूल में हम बिल अपने हाँट फेर देंगे

घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे कि तुम हमारे ईश्वर हो क्योंकि यममूए पर तू ही दया करनेहारा है ॥

उन की हट जाने की वान को दूर करूंगा मैं ४  
संतोषित उन से प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा कोप उन पर से ५  
उतर गया है। मैं इस्राएल के लिये ओस के समान ५  
हूंगा सो वह सोसन की नाई फूले फलेगा और लवानोन ६  
की नाई जड़ फैलाएगा। उस की सोर से फूटकर पौधे ६  
निकलेंगे और उस की शोभा जलपाई की सी और उस ७  
की सुगन्ध लवानोन की सी होगी। जो उस की छाया में ७  
बैठेंगे सो अन्न की नाई बढ़ेंगे और दाखलता की नाई ७  
फूले फलेंगे और उस की कोर्त्त लवानोन के दाखमधु की ८  
सी होगी। एप्रैम ॥ कि मूरतों से अन्न भेगा और क्या ८  
काम मैं उस की सुनकर उस पर टाँट बनाये रखूंगा मैं ८  
हर सनौवर सा हूँ मुर्त्ता से तू ल पाया करेगा ॥

जो बुद्धिमान् हो वही इन बातों को समझेगा जो ९  
प्रवीण हो वही इन्हें धूम सकेगा क्योंकि यहोवा के मार्ग ९  
सीधे हैं धर्मों ताँ उन में चलते रहेंगे पर अपराधी उन ९  
में ठोकर खाकर गिरेंगे ॥

## योएल ।

१. यहोवा का जो वचन योएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा सो २ यह है। हे पुरनियो सुनो हे इस देश के सब रहनेहारों का नाम लगाकर सुनो क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों से वा ३ तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है। अपने लड़के-वालों से इस का वर्णन करो और वे अपने लड़के-वालों से और फिर उन के लड़के-वाले आनेवाली पीढ़ी के ४ लोगों से। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा सो अबो नाम टिड्डी ने खा लिया और जो कुछ अर्ये नाम टिड्डी से बचा सो येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी ने बचा सो ५ हासील नाम टिड्डी ने खा लिया है। हे मलवाली जाग उठो और रोओ और हे सब दाखमधु पीनेहारो नये दाखमधु के कारण हाय हाय करो क्योंकि वह तुम ६ को अब न मिलेगा। देखो मेरे देश पर एक जाति ने

चढ़ाई की है जो सामर्थी है और उस के लोग अन-गिनित हैं उन के दांत मिट्ट के से और दाँटें गिट्टी की सी हैं। उस ने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और ७ मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है और उस की नास छाल छीलकर उसे गिरा दिया है और उस का टालियाँ ८ मेरे से सफ़द हो गई हैं। सुनती अपने पास के लिये कटि में टाट बांधे हुए जैसा विलाप करती है वैसा तुम भी विलाप करो ॥

यहोवा के भवन में न तो अन्नबलि और न अर्घ आता है उस के टहलुए जो याजक हैं वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई भूमि विलाप करती है क्योंकि १० अन्न नाश हो गया नया दाखमधु सूख गया तेल भी सूख गया है। हे किसानो लजाओ हे दाख की बानी के ११ मालियो गेहूँ और जव के लिये हाय हाय करो क्योंकि खेती मारी गई है। दाखलता सूख गई और अंजीर का १२ वृक्ष कुम्हला गया है अनार ताड़ सेव बरन मैदान के सारे वृक्ष सूख गये हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता

(१) मूल में वह तुम्हारे मुँह से कट गया।



- १३ रहा है<sup>१</sup> । हे याजको कटि में टाट बांधकर छाती पीट पीटके रोओ हे वेदी के टहलुओ हाय हाय करो हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ आओ टाट आंढे हुए रात बि आओ क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्नबलि और
- १४ अर्घ्य अन्न नहीं आते । उपवास का दिन ठहराओ महासभा का प्रचार करो पुरनियों के बरन देश के सब रहनेहारों के भी अपने परमेश्वर यह वा के भवन
- १५ में इकट्ठे करके उस की दोहाई दो । उस दिन के कारण हाय हाय यहोवा का दिन तो निकट है वह सर्वशक्तिमान्
- १६ की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा । क्या भोजनवस्तुएं हमारे देखते नाश नहीं हुईं क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनन्द और आह्लाद जाता नहीं
- १७ रहा । बीज ढेलों के नीचे फुलस गये भण्डार सून पड़े हैं खत्ते गिर पड़े हैं क्योंकि खेती मारी गई । पशु कैसे कहराते हैं भुण्ड के भुण्ड गाय बैल विकल हैं क्योंकि उन के लिये चराई नहीं रही और भुण्ड के भुण्ड भेड़
- १९ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं । हे यहोवा मैं तेरी दोहाई देता हूँ क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गईं और मैदान के सब वृक्ष लौ से जल
- २० गये । बरन बनेले पशु भी तेरे लिये हांफते हैं क्योंकि जल के सोते सूख गये और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गईं ॥

## २. सियोन में नरसिंगा फूँके मेरे पवित्र

- पर्वत पर सांस बांधकर फूँको देश के सब रहनेहारे कांप उठें क्योंकि यहोवा का दिन
- २ आता है बरन वह निकट ही है । वह अंधकार और तिमिर का दिन है वह बदली का दिन है अधियारा ऐसा फैलता है जैसा भोर का पथराश पहाड़ों पर फैलता है अर्थात् एक ऐसी बड़ी और सामर्थी जाति आएगी जैती प्राचीन काल से कभी न हुई और न उस के पीछे भी
- ३ पीड़ी पीड़ी में फिर होगी । उस के आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उस के पीछे पीछे लौ जलाती है उस के आगे की भूमि तो एदेन की वारी सरीखी पर उस के पीछे की भूमि उजाड़ है और
- ४ उस से कोई नहीं बच जाता । उन का रूय घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों की नाईं दौड़ते हैं ।
- ५ उन के कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का वा खूँटी भस्म करती हुई

लौ का वा पांति बांधे हुए बली योद्धाओं का शब्द होता है । उन के साम्हने जाति जाति के लोगों को पीड़ें ६ लगा है और सब के मुख मलीन होते हैं । वे शूरवीरों ७ की नाईं दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते और अपने अपने मार्ग पर चलते हैं कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा । एक का दूसरे को ८ धक्का नहीं लगता वे अपनी अपनी राह लिये चले आते शस्त्रों का साम्हना करने से भी उन की पांति नहीं टटती । वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपनाह ९ पर चढ़ते हैं और घरों में ऐसे घुसते जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं । उन के आगे पृथिवी कांप उठती १० और आकाश थरथराता है न तो सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और न तारे झलकते हैं । और ११ यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है क्योंकि उस की सेना बहुत ही बड़ी है और जो उस का वचन पूरा करनेहारा है सो सामर्थी है और यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है उस को कौन सह सकेगा ॥

तौभी यहोवा की यह वाणी है कि अभी सुनो १२ उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से मेरी ओर फिरकर मेरे पास आओ । और अपने वस्त्र नहीं अपने १३ मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु विलम्ब से कांप करनेहारा करुणानिधान और दुःख देकर पछतानेहारा है, क्या जाने वह फिरकर पछुताए और ऐसी आशिष दे १४ जाए जिस से तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्नबलि और अर्घ्य दिया जाए । सियोन में नरसिंगा फूँको १५ उपवास का दिन ठहराओ महासभा का प्रचार करो । लोगों के इकट्ठा करो सभा के पवित्र करो पुरानियों के १६ बुला लो बच्चों और दूधपीउवों के भी इकट्ठा करो दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आएँ । याजक जो यहोवा के टहलुए हैं सो १७ ओंसारे और वेदी के बीच में रो रोकर कहें कि हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई होने न दे और न अन्यजातियां उस की उपमा देने पाएँ जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाएँ कि उन का परमेश्वर कहाँ रहा ॥

तब यहोवा को अपने देश के विषय जलन हुई १८ और उस ने अपनी प्रजा पर तरस खाया । और यहोवा १९

(१) मूल में लजा गया है । (२) मूल में उपवास पवित्र करो ।  
(३) मूल में पीड़ी पीड़ी के बरसों तक ।

(४) मूल में बली लोगों । (५) मूल में तारे अपनी झलक समेटेंगे  
(६) मूल में उपवास पवित्र करो ।

- ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया कि सुनो मैं अब और नया दाखमधु और टटका तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें खा पीकर तृप्त होगे और मैं आगे के अन्यजातियों से तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा ।
- २० और मैं उत्तर और से आई हुई मेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा उस का आगा तो पूरब के ताल की ओर और उस का पीछा पच्छिम के समुद्र की ओर होगा और उस की दुर्गन्ध फैलेगी और उस की सड़ी गंध फैलेगी
- २१ इसलिये कि उस ने बड़े बड़े काम किये हैं । हे देश तू मत डर तू मगन हो और आनन्द कर क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किये हैं । हे मैदान के पशुओ मत डरो क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे अब अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी । और हे सियोनियो<sup>१</sup> तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनन्द करो क्योंकि तुम्हारे लिये वह वर्षा अर्थात् बरसात की पहिली वर्षा जितनी चाहिये उतनी<sup>२</sup> देगा और पहिले मास में २४ की पिछली वर्षा को भी बरसाएगा । सो खलिहान अब से भर जाएंगे और रसकुण्ड नये दाखमधु और टटके २५ तेल से उमड़ेंगे । और जिन बरसों की उपज अबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासील ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात् मेरे बड़े दल ने जिस को मैं ने तुम्हारे बीच भेजा था ली उस की हानि मैं तुम को भर दूंगा । २६ तब तुम पेट भर कर खाओगे और तुम होगे और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिस ने तुम्हारे लिये आश्चर्य के काम किये हैं और मेरी २७ प्रजा की आशा कर्मी न टूटेगी । तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है और मेरी प्रजा की आशा कर्मी न टूटेगी ॥
- २८ उन बातों के पीछे मैं सारे प्राणियों पर अपना आन्मा उण्डेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नष्ट करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान २९ दर्शन देखेंगे । बरन दासों और दासियों पर भी मैं उन ३० दिनों में अपना आन्मा उण्डेलूंगा । और मैं आकाश में और पृथिवी पर चमत्कार अर्थात् लोहू और आग और ३१ धूप के खंभे दिखाऊंगा । यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहिले सूर्य अंधधारा और

चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा । उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करे वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के कहे के अनुसार सियोन पवत पर और यरूशलेम में जिन भागे हुआओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे ॥

### ३. सुनो जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेमवासियों

को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उन के साथ अपनी प्रजा अर्थात् अपने निज भाग इस्राएल के विषय जिसे उन्होंने अन्यायजातियों में वित्तर वित्तर करके मेरे देश को बांट लिया है मुकद्दमा लडूंगा । उन्होंने ने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लडका वेश्या के बदले में दे दिया और एक लडकी बेचकर दाखमधु पिया है । और हे सोर और सीदोन और पलिशत के सब प्रदेशों तुम को मुझ से क्या काम क्या तुम मुझ को बदला दोगे यदि तुम मुझ को बदला देते हो तो भूटपट मैं तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा । क्योंकि तुम ने मेरी चांदी सेना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मन्दिरों में ले जाकर रक्खी हैं, और यहूदियों और यरूशलेमियों के यूनानियों के हाथ इसलिये बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किये जाए । सो सुनो मैं उन को उस स्थान से जहां के जाने-हारों के हाथ तुम ने उन को बेच दिया बुलाने पर हूँ और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा । और मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ निकवा दूंगा और वे उन को शबाइयों के हाथ जो दूर देश के रहनेहार हैं बेच देंगे क्योंकि यहोवा ने यह कहा है ॥

जाति जाति में यह प्रचारो कि तुम युद्ध की तैयारी करो अपने शूरवीरों को उभारो सब योद्धा निकट आकर लज्जे को चढ़ें । अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ जा बलहीन हो सो भी कहे कि मैं वीर हूँ । हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ ॥

हे यहोवा तू भी अपने शूरवीरों को वहा ले जा ॥

जाति जाति के लोग उभरकर चढ़ जाएँ और यहोशापात की तराई जाएँ क्योंकि वहां मैं चारों ओर

(१) मूल में सियोन के लडको ।

(२) मूल में धर्म के लिये ।

(३) मूल में जगाऊंगा । (४) मूल में युद्ध पवित्र करो ।

- १३ की सारी जातियों का न्याय करने को बैठेगा । इसुआ  
लगाओ क्योंकि खेत पक गया है आओ दाख रौंदो  
क्योंकि हौद भर गया रसकुण्ड उमड़ने लगे अर्थात्  
१४ उन की बुराई बढ़ी है । निबटेरे की तराई में भीड़ की  
भीड़, क्योंकि निबटेरे की तराई में यहोवा का दिन निकट  
१५ है । न तो सूर्य और चन्द्रमा अपना अपना प्रकाश  
१६ देंगे और न तारे झलकेंगे । और यहोवा सिव्योन से  
गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा आकाश  
और पृथिवी थरथराएंगी पर यहोवा अपनी प्रजा के लिये  
शरणस्थान और इस्त्राएलियों के लिये गढ़ ठहरेगा ।  
१७ सो तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत  
सिव्योन पर बास किये रहता है सोई हमारा परमेश्वर

है और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी फिर  
उस के होकर न जाने पाएंगे । और उस समय पहाड़ों से १८  
नया दाखमधु टपकने और टीलों से दूध बहने लगेगा  
और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और  
यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिस  
से शिन्तीम नाम नाला सींचा जाएगा । यहूदियों पर १९  
उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा  
हुआ जंगल होगा क्योंकि उन्होंने उन के देश में निर्दोषी  
का खून किया था । पर यहूदा सदा लो और यरूशलेम २०  
पीढ़ी पीढ़ी बनी रहेगी । और उन का जो खून मैं ने २१  
निर्दोषों का नहीं ठहराया उसे अब निर्दोषों का ठहरा-  
ऊंगा यहोवा सिव्योन में बास किये रहता है ॥

## आमोस ।

### १. आमोस तकेई जो मेड़ बकरियों के

चरानेहारों का था उस के ये  
वचन हैं जो उस ने यहूदा के राजा उज्जियाह के और  
योआश के पुत्र इस्त्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में  
भुईंड़ोल से दो बरस पहिले इस्त्राएल के विषय दर्शन  
देखकर कहे ॥

२ यहोवा सिव्योन से गरजेगा और यरूशलेम से  
अपना शब्द सुनाएगा तब चरवाहों की चराइयां विलार  
करेंगी और कर्भेल की चोटी झुलस जाएगी ॥

३ यहोवा यों कहता है कि दमिश्क के तीन क्या  
बरन चार अपराधों के कारण मैं उस का दण्ड न  
छोड़ूंगा<sup>१</sup> क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दांवने-  
४ वाले यंत्रों से दाया । सो मैं हजाएल के राजभवन में  
आग लगाऊंगा और उस से बेन्हदद के राजभवन भी  
५ भस्म हो जाएंगे । और मैं दमिश्क के बेण्डों को तोड़  
डालूंगा और आवेन नाम तराई के रहनेहारों को और  
एदेन के घर में रहनेहारे राजदण्डधारी को नाश करूंगा  
और अराम के लोग बंधुए होकर कीर का जाएंगे यहोवा  
का यही वचन है ॥

६ यहोवा यों कहता है कि अज्जा के तीन क्या

बरन चार अपराधों के कारण मैं उस का दण्ड न  
छोड़ूंगा<sup>२</sup> क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ करके ले गये  
कि उन्हें एदोम के वश में कर दें । सो मैं अज्जा की ७  
शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उस से उस के भवन  
भस्म हो जाएंगे । और मैं अशदोद के रहनेहारों को ८  
और अस्कलोन के राजदण्डधारी को नाश करूंगा और  
मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और  
शेष पलिश्ती लोग नाश होंगे प्रभु यहोवा का यही  
वचन है ॥

यहोवा यों कहता है कि सौर के तीन क्या बरन ९  
चार अपराधों के कारण मैं उस का दण्ड न छोड़ूंगा  
क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंधुआ करके एदोम के  
वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण  
न किया । सो मैं सौर की शहरपनाह पर आग लगाऊंगा १०  
और उस से उस के भवन भी भस्म हो जाएंगे ॥

यहोवा यों कहता है कि एदोम के तीन क्या ११  
बरन चार अपराधों के कारण मैं उस का दण्ड न  
छोड़ूंगा<sup>३</sup> क्योंकि उस ने अपने भाइ के तलवार लिये  
हुए खदेड़ा और दया कुछ भी न की<sup>४</sup> पर कोप से

(१) मूल में मैं उस को न करूंगा ।

(२) मूल में मैं उस को न करूंगा ।

(३) मूल में अपनी दया को विनाशा ।

उन को लगातार सदा फाड़ता रहा और वह अपने रोष  
१२ के अनन्त काल के लिये बनाये रहा । सो मैं तेमान में  
आग लगाऊंगा और उस से बांझा के भवन भस्म  
हो जाएंगे ॥

१३ यहोवा यों कहता है कि अम्मोन के तीन क्या  
बरन चार अपराधों के कारण मैं उस का दण्ड न  
छोड़ूंगा? क्योंकि उन्होंने अपने सिवाने को  
बड़ा लेने के लिये गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट  
१४ चीर डाला । सो मैं रब्बा की शहरपनाह में आग  
लगाऊंगा और उस से उस के भवन भी भस्म हो  
जाएंगे उस युद्ध के दिन में ललकार होगी वह आधी  
१५ बरन बवएडर का दिन होगा । और उन का राजा अपने  
हाकिमों समेत बन्धुआई में जाएगा यहोवा का यही  
वचन है ॥

## २. यहोवा यों कहता है कि मोआब के

तीन क्या बरन चार अपराधों

के कारण मैं उस का दण्ड न छोड़ूंगा? क्योंकि उस ने

एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया ।  
२ सो मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उस से करिश्थात  
के भवन भस्म हो जाएंगे और मोआब हुल्लड़ और

ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा ।  
३ और मैं उस के बीच में से न्यायी को नाश करूंगा  
और साथ ही साथ उस के सारे हाकिमों का भी घात  
करूंगा यहोवा का यही वचन है ॥

४ यहोवा यों कहता है कि यहूदा के तीन क्या बरन  
चार अपराधों के कारण मैं उस का दण्ड न छोड़ूंगा  
क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और  
मेरी विधियों को नहीं माना और अपने झूठों के कारण  
जिन के पीछे उन के पुरखा चलते थे वे भी भटक गये  
५ हैं । सो मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उस से यरूश-  
लेम के भवन भस्म हो जाएंगे ॥

६ यहोवा यों कहता है कि इस्राएल के तीन क्या  
बरन चार अपराधों के कारण मैं उस का दण्ड न  
छोड़ूंगा? क्योंकि उन्होंने ने निर्दोष को रुपए पर और दरिद्र

७ का एक जोड़ी जूतियों के लिये बेच डाला है । वे  
कंगालों के सिर पर की धूल के लिये हांफते और नन्न  
लोगों के मार्ग से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों  
एक ही कुमारी के पास जाते हैं जिस से मरे पवित्र नाम  
८ को अपवित्र ठहराएँ । और वे हर एक वेदी के पास  
बन्धक के वस्त्रों पर सेते हैं और जुरमाना लगाए हुआओं

का दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं । मैं ने ९  
उन के साम्हने से एमेरियों को नाश किया था जिन की  
लम्बाई देवदारों की सी और बल बांज वृक्षों का था  
था तौभी मैं ने ऊपर से उस के फल और नीचे से उस  
की जड़ नाश की । फिर मैं तुम को मित्र देश से १०  
निकाल लाया और जंगल में चात्तीस बरस लों लिये  
फिरता रहा जिस से तुम एमेरियों के देश के अधिकारी  
हो जाओ । और मैं ने तुम्हारे पुत्रों में से नवी होने और ११  
तुम्हारे जवानों में से नाज़ीर होने के लिये ठहराये हैं हे  
इस्राएलियो यहोवा की यह वाणी है कि क्या यह सब  
सच नहीं है । पर तुम ने नाज़ीरों को दाखमधु पिलाया १२  
और नवियों को आशा दी कि नबूवत मत करो ।  
सुनो मैं तुम को ऐसा दबाऊंगा जैसी पूर्लों से भरी हुई १३  
गाड़ी नीचे को दबाई जाए । सो वेग दौड़नेहारे को १४  
भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थ्य का  
सामर्थ्य कुछ काम न देगा और पराक्रमी अपना प्राण  
बचा न सकेगा । और धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा १५  
और फुर्ती से दौड़नेहारा न बचेगा और न सवार भी  
अपना प्राण बचा सकेगा । और शूरवीरों में जो अधिक १६  
धीर हो सो भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा  
यहोवा की यही वाणी है ॥

## ३. हे इस्राएलियो यह वचन सुनो जो

यहोवा ने तुम्हारे विषय अर्थात्  
उस सारे कुल के विषय कहा है जिस को मैं मित्र २  
देश से लाया । पृथिवी के सारे कुलों में से मैं ने केवल  
तुम्हीं पर मन लगाया है इस कारण मैं तुम्हारे सारे  
अधर्म के कामों का दण्ड दूंगा ॥

दो मनुष्य यदि आपस में सम्मति न करें तो क्या ३  
एक संग चल सकेंगे । क्या सिंह बिना अहेर पाये वन ४  
में गरजेंगे क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी  
मांद में से गुराएगा । क्या चिड़िया फदा बिना लगाये ५  
फंसेगी क्या बिना कुछ फसे फदा भूमि पर से उचकेगा ।  
क्या किसी नगर में नरसिंगा फकने पर लोग न धर- ६  
थराएंगे क्या यहोवा के बिना डाले किसी नगर में कोई  
विपत्ति पड़ेगी । इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास ७  
नवियों पर अपना मर्म बिना प्रगट किये कुछ भी न  
करेगा । सिंह गरजा कौन न डरेगा प्रभु यहोवा बोला ८  
कौन नबूवत न करेगा ॥

(१) मूल में मैं उस को न करूंगा ।

(२) वा तुम्हारे नीचे ऐसा दबा हूं जैसे गाड़ी जो पूर्लों से भरी हो  
दबा रहती है ।

- ९ अशदोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कही कि शोमरोन के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उस में क्या ही बड़ा कैलाहल और
- १० उस के बीच क्या ही अंधेर के काम हो रह हैं। और यहोवा की यह वाणी है कि जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं सो सीधाई का काम करना जानते ही नहीं ॥
- ११ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है कि देश का घेरनेवाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेंगा
- १२ और तेरे भवन लूटें जाएंगे। यहोवा यों कहता है कि जिस भाँति चरवाहा सिंह के मुँह से दो टांग व कान का एक टुकड़ा छुड़ाए वैसे ही इस्राएली लोग जो शोमरोन में बिल्लोनों के एक कोने व रेशमी गद्दी पर
- १३ बैठा करते हैं छुड़ाये जाएंगे। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि सुनो और याकूब के घराने
- १४ से यह बात चिताकर कहा कि, जिस समय मैं इस्राएल को उस के अपराधों का दण्ड दूँगा उसी समय मैं बेतल की बेटियों का भी दण्ड दूँगा और वेदी के सींग टूटकर
- १५ भूमि पर गिर पड़ेंगे। और मैं जाड़े का भवन और धूपकाल का भवन दोनों गिराऊँगा और हाथीदाँत के बने भवन भी नाश होंगे और बड़े बड़े घर नाश हो जाएंगे यहोवा की यह वाणी है ॥

४. हे बाशान की गाये यह वचन तुनो

- तुम जो शोमरोन पर्वत पर हो और कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पाँत से कहती हो कि ला
- २ दे हम पीएँ। प्रभु यहोवा अपनी पवित्रता की किरिया खाकर कहता है कि सुनो तुम पर ऐसे दिन आनेहार हैं कि तुम कटियाओं से और तुम्हारे संतान मछुली की
- ३ बंसियों से खींच लिये जाएँगे। और तुम बाड़े के नाकों से होकर साधी निकल जाओगी और हम्मोन में डाली जाओगी यहोवा की यह वाणी है ॥

- ४ बेतल में आकर अन्वेष करो गिल्गाल में आकर बहुत से अपराध करो और अपने चढ़ावे भोर भोर को और अपने दशमांश तीसरे दिन में बराबर ले
- ५ आया करो, और धन्यवादबलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छाभक्तियों की चर्चा चलाकर उन का प्रचार करो क्योंकि हे इस्राएलियो ऐसा करना तुम को
- ६ भावता है प्रभु यहोवा की यह वाणी है। मैं ने तो तुम्हारे सब नगरों में दाँत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है तौभी तुम

मेरी और फिरके न आये यहोवा की यह वाणी है। और जब कटनी के तीन महीने रह गये तब मैं ने तुम्हारे लिये वर्षान की वा मैं ने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया वा एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिस में न बरसा सो सूख गया। सो दो तीन नगरों के लोग पानी पाने के मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आये पर तूतन हुए तौभी तुम मरी और फिरके न आये यहोवा की यह वाणी है। मैं ने तुम को लूह और गरुई से मारा है और जब तुम्हारे भागीचे और दाल की बारियाँ और अजीर और जलपाई के वृक्ष बहुत हो गये तब टिड्डियाँ उन्हें खा गईं तौभी तुम मरी और फिरके न आये यहोवा की यह वाणी है। मैं ने तुम्हारे बीच मिस्र देश का सी मरी फेलाइ और मैं ने तुम्हारे घोड़ों के छिनवाकर तुम्हारे जवानों का तलवार से घात करा दिया और तुम्हारे छावनी की दुर्गन्ध तुम्हारे पास पहुँचाई तौभी तुम मरी और फिरके न आये यहोवा की यह वाणी है। मैं ने तुम में से कई एक ऐसे उलट दिये जिन परमेश्वर ने एदेम और अमोरा का उलट दिया था और तुम आग से निकाली हुई लुकटी के समान ठहरे तौभी तुम मेरी और फिरके न आये यहोवा की यह वाणी है। इस कारण हे इस्राएल मैं तुम्हें से यह काम करूँगा और मैं जो तुम्हें से यह काम करूँगा सो हे इस्राएल अपने परमेश्वर के साम्हने आने के लिये तैयार हो रह। देख पहाड़ का बनानेहारा और पवन का सिर-जनेहारा और मनुष्य को उस के मन का विचार बतानेहारा और भोर को अन्वेष करनेहारा और पृथिवी के ऊँचे स्थानों पर चलनेहारा जो है उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है ॥

५. हे इस्राएल के घराने इस विलाप के

गीत के वचन सुनो जो मैं तुम्हारे विषय कहता हूँ कि, इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उस का उठानेहारा कोई नहीं। क्योंकि प्रभु यहोवा यों कहता है कि जिस नगर से हजार निकलते थे उस में इस्राएल के घराने के सी ही बचे रहेंगे और जिस से सी निकलते थे उस में दस बचे रहेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यों कहता है कि मेरी खोज में लगे तब जीते रहोगे। और बेतल की खोज में न लगे न गिल्गाल में प्रवेश करो न बेशोवा को जाओ क्योंकि गिल्गाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतल सूना पड़ेगा। यहोवा की खोज

करो तब जीते रहोगे नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर  
 आग की नाई भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और  
 ७ बेतल में उस का कोई बुझानेहारा न होगा । हे न्याय  
 के बिगाड़नेहारो<sup>(१)</sup> और धर्म के मिट्टी में मिलानेहारो,  
 ८ जो कचपचिया और मृगांशरा का बनानेहारा है और  
 घोर अंधकार को दूर करके भार का प्रकाश करता और  
 दिन को अंधकार करके रात बना देता और सभुद्र का  
 जल स्थल के ऊपर बहा देता है उस का नाम यहावा  
 ९ है, वह तुरन्त ही बलवन्त को विनाश कर देता और  
 १० गढ़ का भी सत्यानाश करता है । वे उस से बैर रखत  
 हैं जो सना में उलाहना देता है और खरा बात बोलने-  
 ११ हार से घिन करते हैं । तुम जो कगालां का लताड़ा  
 करते और भेंट कहकर उन से अन्न हर लेते हो इस-  
 लिये जो घर तुम ने गढ़े हुए पत्थरों के बनाये हैं उन में  
 रहने न पाओगे और जो मनभावनी दाख की बारियां  
 तुम ने लगाई हैं उन का दाखमधु पीने न पाओगे ।  
 १२ क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी हैं तुम  
 धर्मी का सताते और घूस लेते और फाटक में दारदों  
 १३ का न्याय बिगाड़ते हो । समय तो बुरा है इस कारण  
 १४ जो बुद्धिमान् हो सो ऐसे समय चुपका रहे । इलागा  
 बुराई का नहीं भलाई का पूछो कि तुम जीते रहो  
 और तुम्हारा यह कहना सच टहरे कि सेनाओं का  
 १५ परमेश्वर यहावा हमारे संग है । बुराई से बैर और भलाई  
 से प्रीति रखेओ और फाटक में न्याय को स्थिर करो क्या  
 जाने सेनाओं का परमेश्वर यहावा यूसुफ के बचे हुआं  
 १६ पर अनुग्रह करे । इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु  
 यहावा या कहता है कि सब चौकों में राना पीटना होगा  
 और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे और वे किसान  
 विलाप करने के और जो लोग विलाप करने में निरुण हैं  
 १७ सो राने पीटने को बुलाये जाएंगे । और सब दाख की  
 बारियां में राना पीटना होगा क्योंकि यहावा या कहता है  
 १८ कि मैं तुम्हारे बीच से होकर जाऊंगा । हाय तुम पर जो  
 यहावा के दिन की अभिलाषा करते हो यहावा के दिन  
 से तुम्हारा क्या लाभ होगा वह तो उजियाले का नहीं  
 १९ अधियार का दिन होगा । जैसा कोई सिंह से भागे और  
 उसे भालू मिले वा घर में आकर भीत पर हाथ टेके  
 २० और सांप उस को डसे । क्या यह सच नहीं है कि  
 यहावा का दिन उजियाले का नहीं अधियारे ही का होगा  
 बरन ऐसे घोर अधकार का जिस में कुछ भी चमक  
 न हो ॥

(१) मूल में न्याय को नामदीना बनाने । (२) मूल में फाटक ।

मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा २१  
 जानता हूँ और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न न  
 हूंगा । चाहे तुम मेरे लिये होमबले और अन्नबलि २२  
 चढ़ाओ पर मैं प्रसन्न न हूंगा और न तुम्हारे पोसे हुए  
 पशुओं के मेलबलियों का और ताऊगा । अपने गीतों २३  
 का कालाहल मुझ से दूर करो तुम्हारी सारङ्गियों का  
 सुर मैं न सुनूंगा । न्याय तो नदी की नाई और धर्म २४  
 महानद का नाई बहता जाए । हे इस्राएल के घराने २५  
 तुम जंगल में चालीस बरस लों पशुबलि और अन्नबलि  
 क्या मुझी के चढ़ाते रहे । नहां तुम तो अपने राजा २६  
 का तम्बू और अपनी मूरतों की चरणपीठ और अपने  
 देवता का तारा लिये फिरते रहे । इस कारण मैं तुम २७  
 को दामेशक के उधर बन्धुआई में कर दूंगा सेनाओं के  
 परमेश्वर नाम यहावा का यही वचन है ॥

## ६. हाय उन पर जो सिध्यों में सुख से

रहते और उन पर जो शोमरान  
 के पर्वत पर निश्चिन्त रहते हैं और श्रेष्ठ जात में  
 प्रासद हैं जिन के पास इस्राएल का घराना आता  
 हैं । कलने नगर को जाकर देखा और वहां से हमात २  
 नाम बड़े नगर को चलो फिर पालाश्तया के गत नगर  
 को जाओ क्या वे इन राज्या से उत्तम हैं वा उन का  
 देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है । तुम तो बुर दिन ३  
 का चिन्ता को दूर कर दत और उपद्रव की गद्दी को  
 निकट ले आते हो । तुम हाथी दात के पलङ्गों पर ४  
 सोते और अपने अपने बिछाने पर पांव फैलाये सोते  
 हो और भेड़ बकारियों में से मन्ने और गंशालाओं में  
 से बछुड़े खाते हो, और सारङ्गी के साथ बाहियात ५  
 गीत गाते और दाऊद की नाई भांत भांत के बाजे  
 बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाखमधु पीते ६  
 और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो पर वे यूसुफियों पर  
 आनहरों विपत्त का हाल सुनकर शोकित नहीं होते । इस ७  
 कारण वे अब बन्धुआई में पहिले ही जाएंगे और  
 जो पांव फैलाये सोते वे उन की धूम जाती रहगी ।  
 सेनाओं के परमेश्वर यहावा की यह वाणी है कि प्रभु ८  
 यहावा ने अपनी ही किरिया खाकर कहा है कि जिस  
 पर याकूब घमण्ड करता है उस से मैं घिन और उस के  
 राजभवनों से बैर रखता हूँ और मैं इस नगर को उस  
 सब समेत जो उस में है शत्रु के वश कर दूंगा । और ९  
 चाहे किसी घर में दस पुरुष बचे रहें तौभी वे मर

(१) मूल में मैं न सुनूंगा ।

- १० जाएंगे । और जब किसी का चचा जो उस का फूंकने-  
हारा होभा उस का हड्डियों का घर से निकालने के लिये  
उठाएगा और जो घर के काने में पड़ा हो उस से कहेगा  
कि क्या तेरे पास और कोई है और वह कहेगा कि  
कोई नहीं तब वह कहेगा कि चुप रह क्योंकि यहोवा  
११ का नाम लेना नहीं चाहिये । क्योंकि यहोवा की आज्ञा  
से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी ।  
१२ क्या घोड़े चटान पर दौड़ें क्या कोई ऐसे स्थान में  
बैलों से जोते कि तुम लोगों ने न्याय को विष से और  
धर्म के फल को कड़वे फल से बदल डाला है ।  
१३ तुम ऐसी वस्तु के कारण जो त्वरी माया है आनन्द  
करते हो और कहते हो कि क्या हम अपने ही यत्न से  
१४ सामर्थ्य नहीं हो गये । इस कारण सेनाओं के परमेश्वर  
यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल के घराने देख  
मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमत  
की घाटी से लेकर अराबा की नदी लों तुम को संकट  
में डालेगी ॥

### ७. प्रभु यहोवा ने मुझे यों दिखाया और

- क्या देखता हूँ कि वह पिछली  
घास के उगने के पहिले दिनों में टिड्डियां बना रहा  
है और वह राजा की कटनी के पीछे ही की पिछली  
२ घास थी । जब वे घास खा चुकीं तब मैं ने कहा हे  
प्रभु यहोवा क्षमा कर नहीं तो याकूब किस रीति ठहर  
३ सकेगा वह तो निर्बल है । इस के विषय यहोवा  
पछताया और कहा कि ऐसी बात न होगी ॥  
४ प्रभु यहोवा ने मुझे यों दिखाया और क्या  
देखता हूँ कि प्रभु यहोवा ने आग के द्वारा मुकद्दमा  
लड़ने को पुकारा सो आग से महासागर सूख गया  
५ और देश भी भस्म हुआ चाहता था । तब मैं ने कहा  
हे प्रभु यहोवा रह जा नहीं तो याकूब किस रीति ठहर  
६ सकेगा वह तो निर्बल है । इस के विषय भी यहोवा  
पछताया और प्रभु यहोवा ने कहा कि ऐसी बात न  
होगी ॥  
७ उस ने मुझे यों भी दिखाया कि प्रभु साहुल  
लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है और उस  
८ के हाथ में साहुल है । और यहोवा ने मुझ से कहा हे  
आमोस तुझे क्या देख पड़ता है मैं ने कहा एक साहुल  
तब प्रभु ने कहा मुन मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच  
९ में साहुल लगाऊंगा मैं अब उन को न छोड़ूंगा । और  
इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के

पवित्रस्थान सुनसान हो जाएंगे और मैं यारोबाम के  
घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा ॥

तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के १०  
राजा यारोबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने  
इस्राएल के घराने के बीच में तुझ से राजद्रोह की  
गोष्ठी की है उस के सारे वचनों का देश नहीं सह  
सकता । आमांस तो यों कहता है कि यारोबाम तलवार ११  
से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से  
निश्चय बंधुआई में जाएगा । अमस्याह ने आमोस से १२  
कहा हे दर्शा यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग  
जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं नभूवत किया  
कर । पर बेतेल में फिर कभी नभूवत न करना क्योंकि १३  
यह राजा का पवित्रस्थान और राजपुरी है । आमोस १४  
ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा मैं न तो नबी था  
और न नबी का बेटा मैं गाय बैल का चरवाहा और  
गूलर के वृक्षों का छांटनेहारा था । और यहोवा ने मुझे १५  
भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुझाकर कहा जा  
मेरी प्रजा इस्राएल से नभूवत कर । सो अब तू यहोवा १६  
का वचन सुन तू कहता है कि इस्राएल के विरुद्ध  
नभूवत मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार  
बार वचन मत सुना । इस कारण यहोवा यों कहता १७  
है कि तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे  
बेटियां तलवार से मारी जाएगी और तेरी भूमि डोरी  
डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश  
में मरेगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय  
बंधुआई में जाएगा ॥

### ८. प्रभु यहोवा ने मुझ को यों दिखाया कि

धूर काल के फलों से भरी हुई  
एक टोकरी है । और उस ने कहा हे आमोस तुझे क्या २  
देख पड़ता है मैं ने कहा धूरकाल के फलों से भरी  
एक टोकरी । यहोवा ने मुझ से कहा मेरी प्रजा इस्राएल  
का अन्त आ गया है मैं अब उस को और न  
छोड़ूंगा । और प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि उस ३  
दिन राजमन्दिर में के गीत हाहाकार से बदल जाएंगे  
और लोथों का बड़ा ढेर लगंगा और सब स्थानों में वे  
चुपचाप फेंक दी जाएंगी । यह सुनो तुम जो दरिद्रों ४  
को निगलना और देश में के नम्र लोगों को नाश करना  
चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब भीतेगा कि हम ५  
अन्न बेच सकें और विश्रामदिन कब भीतेगा कि हम

(२) मूल में विरुद्ध मत टपका । (३) मूल में कैसे ।

(४) मूल में कैसे । (५) मूल में हाहाकार करेगे ।

(१) मूल में छोटा ।

अन्न के खत्ते खोलकर एग के छोटा और शेकेल के  
 ६ भारी कर दें और छल से डण्डी मारें, और कंगालों के  
 रुपया देकर और दरिद्रों के एक जोड़ी जूतियां देकर मोल  
 ७ लें और निकम्मा अन्न बेचें । यहाँवा जिस पर याकूब  
 के घमण्ड करना योग्य है वही अपनी किरिया खाकर  
 कहता है कि मैं तुम्हारे किमी काम के कभी न भूलूंगा ।  
 ८ क्या इस कारण भूमि न कापेगी और क्या उस पर के सब  
 रहनेहारे विलाप न करेंगे यह देश सब का सब मिस्र की  
 नील नदी के समान होगा जो बढ़ती फिर लहरें  
 ९ मारती और घट जाती है । प्रभु यहोवा की यह वाणी  
 है कि उस समय मैं सूर्य के दोपहर के समय अस्त  
 करूंगा और इस देश के दिन दुपहरी अधियारा कर  
 १० दूंगा । और मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव के दूर करके विलाप  
 कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों के दूर करके विलाप  
 के गीत गवाऊंगा और मैं तुम सब का कंठ में टाट  
 बंधाऊंगा और तुम सब के सिरों के मुंडाऊंगा और  
 ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एकलौते के लिये होता है  
 और इस का अन्त काँठन दुःख के दिन का सा होगा ।  
 ११ प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि सुनो ऐसे दिन आते  
 हैं कि मैं इस देश में महंगी करूंगा उस में न तो अन्न की  
 भूख और न पानी की प्यास होगी पर यहोवा के वचनों  
 १२ के सुनने ही की भूख प्यास होगी । और लोग यहोवा के  
 वचन की खोज में समुद्र से समुद्र लों और उत्तर से पूरब  
 १३ लों मारे मारे तो फिरंगे पर उस को न पाएंगे । उस समय  
 सुन्दर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे  
 १४ मूर्छा खाएंगे । जो लोग शोमोन के पापमूल देवता की  
 किरिया खाते हैं और जो कहते हैं कि दान के देवता  
 के जीवन की सों और बेशोवा के पंथ की सों वे सब गिर  
 पड़ेंगे और फिर न उठेंगे ॥

## ६. फिर मैं ने प्रभु के वेदी के ऊपर

खड़ा देखा और उस ने कहा  
 खंभे की कंगनियों पर मार जिम से डेवदियां हिलें और  
 उन के सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर  
 और जो नाश हाने से बचें उन्हें मैं तलवार से घात  
 करूंगा यहां लों कि उन में से जो भागे वह भाग न  
 निकलेगा और जो अपने को बचाए सो बचने न  
 २ पाएगा । क्योंकि चाहे वे खोदकर अधोलोक में उतर  
 जाएं तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा और  
 चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो वहां से मैं उन्हें

उतार लाऊंगा । और चाहे वे कर्मेल में छिप जाएं पर  
 ३ वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा और चाहे वे  
 समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से छोट हों पर वहां मैं  
 सप के उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा । और चाहे शत्रु  
 ४ उन्हें हांक हांककर बंधुआई में ले जाएं पर वहां भी मैं  
 आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा और मैं  
 उन पर भलाई करने के लिये नहीं बुराई ही करने के  
 लिये दृष्टि रखूंगा । और सेनाओं के प्रभु यहोवा के  
 ५ स्पर्श करने से पृथिवी पिघलती है और उस के सारे  
 रहनेहारे विलाप करने हैं और वह सब की सब मिस्र  
 की नदी के समान हो जाती है जो बढ़ती फिर लहरें  
 मारती और घट जाती है । जो आकाश में अपनी कोठ-  
 ६ रियां बनाता और अपने आकाशमण्डल की नेव पृथिवी  
 पर डालता और समुद्र का जल भरती पर बहा देता  
 है उसी का नाम यहोवा है । हे इस्राएलियो यहोवा  
 ७ की यह वाणी है कि क्या तुम मेरे लेखे कृशियों के  
 बराबर नहीं हो क्या मैं इस्राएल के मिस्र देश से नहीं  
 लाया और पलिश्तियों के कमेर से और अगामियों के  
 कीर से नहीं लाया । सुनो प्रभु यहोवा की दृष्टि इस पाप-  
 ८ मय राज्य पर लगी है और मैं इस के धरती पर से नाश  
 करूंगा तौभी पूरी रीति से मैं याकूब के घराने को नाश  
 न करूंगा यहोवा की यही वाणी है । मेरी आज्ञा से  
 ९ इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा  
 जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है पर उस में का एक  
 भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा । मेरी प्रजा में के सब  
 १० पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और  
 न हमें धेरेगी सो तो तलवार से मारे जाएंगे ॥

उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई भोपड़ी के  
 ११ खड़ा करूंगा और उस के बाड़े के नाकों के सुधारूंगा  
 और उस के खण्डहरों को फेर बनाऊंगा और प्राचीन  
 काल में जैसा वह था वैसा ही उस को बना दूंगा,  
 जिस से वे बचे हुए एदोमियों बरन सब अन्यजातियों  
 १२ को जो मेरी कहावती है अपने अधिकार में लें यहोवा  
 जो यह काम पूरा करता है उस की यही वाणी है ।  
 यहोवा की यह भी वाणी है कि सुनो ऐसे दिन आते  
 १३ हैं कि हल जंतते जोतते लवना आरंभ होगा और दाख  
 रौदते रौदते बीज बोना आरंभ होगा और पहाड़ों से  
 नया दाखमधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियां पिघल  
 जाएंगी । और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं के  
 १४

(१) मूल में कड़वा दिन । (२) मूल में हे दान तैरे ।

(३) मूल में इस जोननेहारा लवनेहारे को और दाख रौदनेहारा बीज बोनेहारे का जा लेगा ।



फेर ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधारकर  
बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर दाखमधु पीएंगे  
१५ और बगीचे लगाकर फल खाएंगे । और मैं उन्हें उन्हीं

की भूमि में रोपूंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैं ने  
उन्हें दी है फिर उखाड़े न जाएंगे तेरे परमेश्वर यहोवा  
का यही वचन है ॥

## ओबद्याह ।

ओबद्याह का दर्शन । प्रभु यहोवा ने

- १ एदोम के विषय में कहा कि हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्यजातियों में यह कहने को भेजा गया है कि उठो हम उस से लड़ने
- २ के उठें । मैं तुम्हें जातियों में छोड़ा करता हूँ तू
- ३ बहुत तुच्छ गिना जाएगा । हे ढांग की दरारों में बसनेवाले हे ऊंचे स्थान में रहनेवाले तेरे अभिमान ने तुम्हें धोखा दिया है तू तो मन में कहता है
- ४ कि कौन मुझे भूमि पर उतार देगा । पर चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो बरनः तारागण के बीच अपना घोंसला बनाये हो तौभी मैं तुम्हें वहां से
- ५ नीचे गिराऊंगा यहोवा की यही वाणी है । यदि चोर डाकू रात के तेरे पास आता ( हाथ तू कैसे मिटा दिया गया है ) तो क्या वे चुराए हुए धन से तूत होकर चले न जाते और यदि दाख के तोड़नेवाले तेरे पास आते तो
- ६ क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते । पर एसाव का जो कुछ है वह कैसा खोजकर निकाला गया है उस का गुम धन कैसा पता लगा लगाकर निकाला गया है ।
- ७ जितने तुम्ह से वाचा बांधे थे सियाने लो उन सभी ने तुम्ह को पहुंचा दिया है जो लोग तुम्ह से मेल रखते थे वे तुम्ह को धोखा देकर तुम्ह पर प्रवल हुए हैं और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिये फन्दा लगाते हैं
- ८ उस में कुछ समझ नहीं है, यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नाश न करूंगा ।
- ९ और हे तेमान तेरे शूरवीर का मन कष्ट हो जाएगा और यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होने से
- १० नाश हो जाएगा । हे एसाव उस उपद्रव के कारण जो तू ने अपने भाई याकूब पर किया तू लज्जा से ढंपेगा और
- ११ सदा के लिये नाश हो जाएगा । जिस दिन परदेशी लोग

उस की धन संपत्ति छीनकर ले गये और बिराने लोगों ने उम के फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली और उस दिन तू भी उन में से एक सा हुआ । पर तू अपने भाई के दिन में अर्थात् उस के विपत्ति के दिन में उस की ओर देखता न रहना और यहूदियों के नाश होने के दिन उन के ऊपर आनन्द न करना और उन के संकट के दिन बड़ा बोल न बोलना । मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उस के फाटक से न घुसना और उस की विपत्ति के दिन उस की दुर्दशा को देखता न रहना और उस की विपत्ति के दिन उस की धन संपत्ति पर हाथ न लगाना । और तिरमुहाने पर उस के भागनेवालों को मार डालने के लिये खड़ा न होना और उस के संकट के दिन उस के बचे हुएओं को पकड़ा न देना । क्योंकि सारी अन्यजातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है जैसा तू ने किया है वैसा ही तुम्ह से भी किया जाएगा तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा । जिस प्रकार तू ने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया उसी प्रकार से सारी अन्यजातियां लगातार पीती रहेंगी बरन सुइक सुइककर पीएंगी और ऐसी हो जाएंगी मानों कभी हुई ही नहीं । उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्रस्थान टहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा । और याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खंडी बनेगा और वे उन में आग लगाकर उन को भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा क्योंकि यहांवा ही ने ऐसा कहा है । और दक्खिन देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग पलिशतियों के अधिकारी होंगे और यहूदी एप्रैम और शोमरोन के दिहात को अपने भाग में लेंगे और विन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा । और इस्राएलियों के उस दल में से जो

लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत लो रहते हैं और यरूशलेमियों में से जा लोग बंधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं सो सब दक्खिन देश के

नगरों के अधिकारी हो जाएंगे । और उद्धार करनेहारे २१ ए-वाव के पहाड़ का न्याय करने के लिये सियोन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा हा का हो जाएगा ॥

## योना ।

१. यहोवा का यह वचन अमित के पुत्र योना के पास पहुंचा कि ।

- २ उठकर उस बड़े नगर नीनव को जा और उस के विरुद्ध प्रचार कर क्योंकि उस की बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है १ पर योना यहोवा के सन्मुख मे तर्शाश को भाग जाने के लिये उठा और यापो नगर को जाकर तर्शाश जानेहारा एक जहाज पाया और भाड़ा दे उस पर चढ़ २ गया कि उन के साथ होकर यहोवा के सन्मुख से तर्शाश को चला जाए । तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड बयार चलाई सो समुद्र में बड़ी आंधी उठी यहां लो कि जहाज टूटा चाहता था । तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्योपार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे जिस से उन को कुछ कल हो जाए । योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और भारी नींद में पड़ा हुआ था । सो मांझी उस के निकट आकर कहने लगा तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है उठ अपने देवता की दोहाई दे क्या जाने परमेश्वर हमारी चिन्ता करे कि हमारा नाश न हो ।
- ७ फिर उन्हों ने आपस में कहा आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किस के कारण पड़ी है सो उन्हों ने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली । तब उन्हों ने उस से कहा हमें बता कि किस के कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है तेरा उद्यम क्या है और तू कहां से आया है तू किस देश और किस जाति का है । उस ने उन से कहा मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिस ने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं । तब वे निपट डर गये और उस से कहने लगे कि तू ने यह क्या किया है क्योंकि वे इस कारण जान गये थे कि वह यहोवा के सन्मुख से भाग आया है कि उस ने उन को ऐसा बता दिया था । फिर उन्हों ने उस से पूछा हम तुम्ह से

क्या करें कि समुद्र में नीवा पड़ जाए उस समय तो समुद्र की लहरें बढ़ती चली जाती थीं । उस १२ ने उन से कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तब समुद्र में नीवा पड़ जाएगा क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर भेग ही कारण आई है । तौभी उन मनुष्यों ने बड़े यत्न से ख्या जिस से उस को १३ तीर में लगाए पर पहुंच न सके इसलिए कि समुद्र की लहरें उन के विरुद्ध बढ़ती चली जाती थीं । तब उन्हों ने यहोवा को पुकारकर कहा हे यहोवा १४ हम बिनती करत हैं कि इस पुरुष के प्राण की सती हमारा नाश न होने दे और न हमें निर्दोष के खून के दोषी ठहरा क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी सोई तू ने किया है । तब उन्हों ने योना को उठाकर १५ समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में हलकोरे उठने से थम गये । तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय १६ माना और उस को चढ़ावे चढ़ाये और मन्नतें मानीं । यहोवा ने तो एक बड़ा सा मच्छ उहराया कि योना १७ को निगल ले और योना उस मच्छ के पेट में तीन दिन और तीन रात पड़ा रहा ॥

२. तब योना ने उस के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि

पड़े हुए मैं ने संकट में यहोवा की दोहाई दी २ और उस ने मेरी सुन ली अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तू ने मेरी सुन ली ॥ तू ने मुझे गहिर सागर में समुद्र की थाह तक ३ डाल दिया और मैं धारों के बीच पड़ा था तेरे उदाए हुए सारे तरङ्ग और डेऊ मेरे ऊपर से चलते थे ॥

(१) मूल में चढ़ आई है । (२) मूल में उस में उतरा ।

- ४ मैं ने कहा कि मैं तेरे साम्हने से निकाल दिया गया हूँ  
तौभी तेरे पवित्र मन्दिर की ओर फिर ताकूंगा ॥
- ५ मैं जल से यहां लों घिरा हुआ था कि मेरा प्राण जाता था  
गहिरा सागर मेरे चारों ओर था  
और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था ॥
- ६ मैं पहाड़ों की जड़ लों पहुँच गया था  
मैं सदा के लिये भूमि में बन्द हो गया था  
तौभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू ने मेरे प्राण को गड़हे में से उठाया है ॥
- ७ जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैं ने यहोवा को स्मरण किया  
और मेरी प्रार्थना तेरे पास बरन तेरे पवित्र मन्दिर में पहुँच गई ॥
- ८ जो लोग धोखे का व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने हैं  
सो अपने करुणानिधान को छोड़ देते हैं ॥
- ९ पर मैं जंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलि चढ़ाऊंगा  
मैं ने जो मन्नत मानी उस को पूरी करूंगा  
उद्धार यहोवा ही से होता है ॥
- १० इस पर यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी  
और उस ने योना को स्थल पर उगल दिया ॥

### ३. फिर यहोवा का यह वचन दूसरी

- बार योना के पास पहुँचा कि,  
१ उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं  
२ तुझ से कहूंगा उस का उस में प्रचार कर । सो योना यहोवा के कहे के अनुसार नीनवे को गया । नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था वह तीन दिन की यात्रा का था । सो योना नगर में प्रवेश करके एक दिन के मार्ग लों गया और यह प्रचार करता गया कि अब से चालीस दिन के बीते पर नीनवे उलट दिया जाएगा ।  
५ तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे लों सभी ने टाट ओढ़ा । तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान लों पहुँचा सो उस ने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया । और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य क्या गाय बैल क्या भेड़ बकरी क्या और और पशु कोई कुछ भी न खाए वं न खार्ए न पानी पीवें । और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें

और वं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्लाकर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं फिरें । क्या जाने परमेश्वर फिरे और पछुताए और उस का भड़का हुआ कोर शांत हो जाए और हम नाश न हों । तब परमेश्वर ने उन के कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिरे जाते हैं सो परमेश्वर ने पछुताकर उन की जो हानि करने को कहा था उस को न किया ॥

### ४. यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी

और उस का क्रोध भड़का । और उस ने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा मेरी बिनती यह है कि जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था इ ॥ कारण मैं ने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शाश को भागने को फुर्ती की क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर और विलम्ब से कोप करनेहारा करुणानिधान और दुःख देने से पछुतानेहारा है । सो अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले क्योंकि मेरे लिये जीते रहने से मरना ही अच्छा है । यहोवा ने कहा तब जो क्रोध भड़का है सो क्या अच्छा है । इस पर योना उस नगर से निकलकर उस की पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छुप्पर बनाकर उस की छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा । तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बड़ाया कि योना के सिर पर छाया हो जिस से उम का दुःख दूर हो सो योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनन्दित हुआ । बिहान को जब पह पटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़ा ठहराया जिस ने रेंड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया । और जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लूह चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा और यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिये जीते रहने से मरना ही अच्छा है । परमेश्वर ने योना से कहा तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है क्या अच्छा है ? उस ने कहा हां मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है बरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता । तब यहोवा ने कहा जिस रेंड के पेड़ के लिये तू ने न तो कुछ परिश्रम किया न उस को बड़ाया और वह एक ही रात में हुआ फिर एक ही रात ने नाश भी हुआ उस पर तो तू ने तरस खाई है । फिर यह बड़ा नगर नीनवे जिस में एक लाख बीस हजार से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दहिने बाए हाथों का भेद नहीं पहिचानते और बहुत घरेले पशु भी रहते हैं उस पर क्या मैं तरस न खाऊं ॥

# मीका ।

१. यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा येताम आहाज और हिज-कियाह के दिनों में मीका मोंगशेती के पहुँचा जिस को उस ने शोमरोन और यरूशलेम के विषय पाया ।
- २ हे जाति जाति के सार लोंगो सुनो हे पृथिवी तू उस सब समेत जो तुझ में हैं ध्यान धर कि प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध बरन प्रभु अपने पवित्र मन्दिर में से साक्षी हो ॥
- ३ देखो यहोवा तो अपने स्थान में से निकलता है और उतरकर पृथिवी के ऊँचे स्थानों पर चलेगा ।
- ४ और पहाड़ उस के नीचे ऐसे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेंगी जैसे मॉम आग की आंच से और पानी जो पहाट से नीचे बहता है । यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण भे होता है याकूब का अपराध क्या है क्या शोमरोन नहीं है और यहूदा के ऊँचे स्थान क्या हैं क्या वे यरूशलेम नहीं ।
- ६ इस कारण मैं शोमरोन का मैदान का डीह कर दूंगा और दाख की थारी ही थारी हो जाएगी और मैं उस के पत्थरों के खड्ड में लुढ़का दूंगा और उस की नेव उघारूंगा । और उस की सब खुदी हुई मूरतें टुकड़े टुकड़े की जाएंगी और जो कुछ उस ने छिनाला करके कमाया है सो आग से भस्म किया जाएगा और उस की सब प्रतिमाओं का मैं चकनाचूर करूंगा क्योंकि छिनाले की सी कमाई से तो उस ने उन का बटोर रक्खा है और वे फिर छिनाले की सी कमाई ही हो जाएंगी ॥
- ८ इस कारण मैं छाती पीट पीटकर हाय हाय करूंगा मैं लुटा सा और नंगा चलूंगा मैं गीदड़ों की
- ९ नाई चिल्लाऊंगा और शुनुमुंगों की नाई रोंऊंगा । क्योंकि उस के धाव असाध्य हैं और विपत्ति यहूदी पर भी आ पड़ी बरन वह मर जातिभाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक लों पहुँच गई है । गत नगर में इस की चर्चा मत करो और कुछ भी मत रोंओ बेतलाप्रा में धूल में लोटपोट करो । हे शापीर नंगे हाँसे लजित होकर निकल जा सानान<sup>३</sup> की रहनेहारी नहीं निकली बेतसेल

(१) अर्थात् बूल के बर । (२) अर्थात् निकलना ।

- में रोना पीटना तुम को उस में रहने न देगा । क्योंकि १२ मारोत की रहनेहारी का कुशल की बात जोहते जोहते पीड़ें उठती हैं इसलिये कि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक लों विपत्ति आ पहुँची है । हे १३ लार्काश की रहनेहारी अपने रथों में वेग चलनेहारे घोंड़ जोत सिथ्योन की प्रजा का पाप उसी से आरंभ हुआ और इस्राएल के अपराध तुम्हीं में पाये गये । इस कारण तू गत के मारेशेत के दान देकर दूर कर १४ देगा क्योंकि अकजीब<sup>४</sup> के घर से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे । हे मारेशा की रहनेहारी मैं फिर तुझ १५ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा और इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा । अपने दुलारे १६ लड़कों के लिये अपना केश कटवाकर सिर मुंडा बरन अपना सारा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे क्योंकि वे बांधुए होकर तेरे पास से चले गये हैं ॥

## २. हाय उन पर जो बिल्लौनों पर पड़े हुए

- अर्थ कल्पना करते और दुष्ट काम विचारते हैं और बलवन्त होने के कारण विधान का दिन होते ही वे उस को पूरा करने पाते हैं । और २ वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते और घरों का लालच करके उन्हें ले लेते हैं और उस के घराने समेत किसी पुरुष पर और उस के निज भाग समेत किसी पुरुष पर अन्धेर करते हैं । इस कारण यहोवा यों ३ कहता है कि मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने की कल्पना करता हूँ जिस के नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकेगो न अपने सिर ऊँचे किय हुए चल सकेगो ४ क्योंकि विपत्ति का समय होगा । उस समय यह अत्यन्त शोक का गीत दृष्टान्त की रीति गाया जाएगा कि हम तो नाश ही नाश हो गये वह मर लोंगों के भाग को बिगाड़ता है हाय वह उसे मुझ से कितनी ही दूर कर देता है वह हमारे खेत बलवैये का दे देता है । इस कारण ५ तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहोवा की मण्डली में चिट्ठी डालकर डोरी डाले । वे तो कहा करते हैं कि ६

(३) मूल में सिथ्योन की बंदी का

(४) अर्थात् धाखे । (५) मूल में इस्राएल की महिमा को ।

कहते न रहना वे इन के लिये कहते न रहेंगे, अप्रतिष्ठा  
 ७ जाती न रहेगी । हे याकूब के घराने क्या यह कहा  
 जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है' । क्या ये  
 काम उसी के किये हुए हैं क्या मेरे वचनों से उस का  
 ८ भला नहीं होता जो सीधार्ई से चलता है । पर मेरी  
 प्रजा आज कल शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है जो लोग  
 निधड़क और बिना लड़ाई का कुछ विचार किये चले  
 ९ जाते हैं उन से तुम चदर खींच लेते हो । मेरी प्रजा में  
 की स्त्रियों को तुम उन के सुखधामों से निकाल देते हो  
 और उन के नन्हें बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम  
 १० वस्तुएं<sup>१</sup> सबदा के लिये छीन लेते हो । उठो चले जाओ  
 क्योंकि यह तुम्हारा विश्रामस्थान नहीं है इस का कारण  
 वह अशुद्धता है जो कठिन दुःख के साथ तुम्हारा नाश  
 ११ करेगी । यदि कोई भूठे आत्मा में चलता हुआ यह  
 भूठी बात कहे कि मैं तुम से नित्य दाखमधु और  
 मदिरा का वचन सुनाता रहूंगा तो वही इन लोगों का  
 नबी ठहरेगा ॥

१२ हे याकूब मैं निश्चय तुम सभों को इकट्ठा करूंगा  
 मैं इस्राएल के बचे हुएओं को निश्चय बटोरूंगा और  
 बोसा की मेड़ बकरियों की नाई एक संग रखूंगा उस  
 भुण्ड की नाई जो अच्छी चराई में हो वे मनुष्यों की  
 १३ बहुनायन के मारे कोलाहल करेंगे । उन के आगे बाड़े  
 का तोड़नेहारा निकल गया सो वे भी उसे तोड़ रहे हैं  
 और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं उन का  
 राजा उन के आगे और यहोवा उन के सिरे पर  
 निकला है ॥

३. श्री मैं ने कहा हे याकूब के प्रधानो

हे इस्राएल के घराने के न्यायियो  
 सुनो क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम  
 २ नहीं । तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते  
 हो मानो तुम लोगों पर से उन की खाल और उन की  
 ३ हड्डियों पर से उन का मांस उधेड़ लेते हो, वरन वे मेरे  
 लोगों का मांस खा भी लेते और उन की खाल उधेड़ते  
 वे उन की हड्डियों को हांडी में पकाने के लिये तोड़ डालते  
 और उन का मांस हंडे में पकाने के लिये टुकड़े टुकड़े  
 ४ करते हैं । वे उस समय यहोवा की दोहाई देंगे पर वह  
 उन की न सुनेगा वरन उस समय वह उन के बुरे कामों  
 ५ के कारण उन से मुंह फेर लेगा । यहोवा का यह वचन

(१) वा हे याकूब का घराना कहावेबाने क्या यहोवा का आत्मा  
 अधीर हो गया है । (२) मूल में मेरा प्रताप ।

हे जो नबी मेरी प्रजा को भटका देते हैं और अपने  
 दांतों से काटकर शांति शांति पुकारते हैं और जो कोई  
 उन के मुंह में कुछ नहीं देता उस के विरुद्ध युद्ध करने  
 को तैयार हो जाते हैं,<sup>२</sup> इस कारण ऐसी रात तुम पर ६  
 आएगी कि तुम को दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे  
 अंधकार में पड़ेगे कि भावी न कह सकेगे और नबियों  
 के लिये सूर्य अस्त होगा और दिन रहते अंधियारा हो  
 जाएगा । और दर्शी लजित होंगे और भावी कहनेहारों ७  
 के मुंह काले होंगे और वे सब के सब इसलिये अपने  
 होंठों का टापेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं  
 मिलता । पर मैं तो यहोवा के आत्मा से शक्ति न्याय ८  
 और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उस  
 का अपराध और इस्राएल को उस का पाप जता सकूँ ।  
 हे याकूब के घराने के प्रधानो हे इस्राएल के घराने के ९  
 न्यायियो हे न्याय से घिन करनेहारो और सब सीधी  
 बातों को टेढ़ी मेढ़ी करनेहारो यह बात सुनो । वे तो १०  
 सिध्यों को खून करके और यरूशलेम को कुटिलना  
 करके दृढ़ करते हैं । उस के प्रधान घूस ले लेकर ११  
 विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते  
 और नबी रुपए के लिये भावी कहते हैं और इतने पर  
 भी वे यह कहकर यहोवा पर टेक लगाते हैं कि यहोवा  
 हमारे बीच में तो है सो कोई विपत्ति हम पर आ न  
 पड़ेगी । इस कारण तुम्हारे हेतु सिध्यान जातकर स्वेत १२  
 बनाया जाएगा और यरूशलेम डीढ़ ही डीढ़ हो जाएगा  
 और जिस पर्वत पर भवन बना है सो वन के ऊंचे  
 स्थान हो जाएगा ॥

४. एस। होगा कि अन्त के दिनों में यहोवा

के भवन का पर्वत सब पहाड़ों  
 पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक  
 ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग २  
 धारा की नाई उस की ओर चलेंगे । और बहुत २  
 जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे कि  
 आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब  
 के परमेश्वर के भवन में जाएं तब वह हम को अपने  
 मार्ग सिखाएगा और हम उस के पथों पर चलेंगे क्योंकि  
 यहोवा की व्यवस्था सिध्यों से और उस का वचन  
 यरूशलेम से निकलेगा । वह बहुत देशों के लोगों का ३  
 न्याय करेगा और दूर दूर लों की सामर्थी जातियों के  
 भगड़ों को मिटाएगा सो वे अपनी तलवारें पीटकर हल  
 के पाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे तब एक

(१) मूल में युद्ध पवित्र करते हैं । (२) मूल में बाला ।

जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी  
४ और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे । बरन वे  
अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा  
करेंगे और कोई उन को डर न दिखाएगा सेनाओं के  
५ यहोवा ने यही वचन दिया है । सब राज्यों के लोग तो  
अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं पर हम  
लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा  
सर्वदा चलते रहेंगे ॥

६ यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं प्रजा  
में के लंगडानेहारों<sup>१</sup> और बरबस निकाले हुआ<sup>२</sup> को  
और जिन को मैं ने दुःख दिया है उन को इकट्ठे  
७ करूंगा । और मैं लंगडानेहारों<sup>३</sup> का बचा रखूंगा और  
दूर किये हुआ<sup>४</sup> को एक सामर्थी जाति कर दूंगा और  
यहोवा उन पर सियोन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य  
८ करता रहेगा । और हे एदेर के गुम्मट हे सियोन<sup>५</sup>  
की पहाड़ी पहिली प्रभुता अर्थात् यरूशलेम<sup>६</sup> का राज्य  
९ तुझे मिलेगा । अब तू क्यों चाख मारती है क्या तुझ में  
काई राजा नहीं रहा क्या तुझ में का युक्ति करनेहारा  
नाश हुआ कि जननेहारी स्त्री की नाई तुझे पीड़े उठती  
१० ही रहें । हे सियोन की बेटी जननेहारे स्त्री का नाई पीड़े  
उठाकर जन क्योंकि अब तू गद्दी में से निकलकर मैदान  
में बसेगी बरन बाबेल लों जाएगी वहीं तू छुड़ाई जाएगी  
अर्थात् वहीं यहोवा तुझे तें शत्रुओं के वश से छुड़ा  
११ लेगा । और अब बहुत सी जातियां तें विरुद्ध इकट्ठी होकर  
तें विषय कहेंगी कि सियोन अपावत्र का जाए और हम  
१२ अपनी आंखों से उस को निहारें । पर वे यहोवा का  
कल्पनाए नहीं जानते न उस की युक्ति समझते हैं कि वह  
१३ उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते  
हैं । हे सियोन<sup>५</sup> उठ और दाव में तेरे सींगों को लोह के  
और तेरे खुरों का पीतल के बना दूंगा और तू बहुत सी  
जातियों का चूरचूर करेगी और उन का कमाई यहोवा

का और उन की धन संपत्ति पृथिवी के प्रभु के  
१४ लिये अर्पण करेगी । अब हे बहुत दलों की  
स्वामिनी<sup>६</sup> दल बांध बांधकर इकट्ठी हो क्योंकि उस ने  
हम लोगों को घेर लिया है वे इस्राएल के न्यायी के  
गाल पर सोटा मारेंगे ॥

१५ हे बेतलेहेम एप्रता तू ऐसा छोटा है कि यहूदा  
के हजारों में गिना नहीं जाता<sup>७</sup> तौभी तुझ में से मेरे

(१) मूल में लंगडानेहारी । (२) मूल में निकाली हुई । (३) मूल में  
की हुई । (४) मूल में सियोन की बेटी । (५) मूल में यरूशलेम  
का बेटी । (६) मूल में बेटी । (७) मूल में तू यहूदा के हजारों में  
होने से छोटा है ।

लिये एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता  
करनेहारा होगा और उस का निकलना प्राचीन काल  
से बरन अनादि काल से होता आया है । इस कारण ३  
वह उन को तब लों त्यागे रहेगा जब लों जननेहारी  
जन न ले तब इस्राएलियों के पास उस के बचे हुए भाई  
लौटकर उन से मिल जाएंगे । और वह खड़ा होकर ४  
यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर  
यहोवा के नाम के प्रताप से उन की चरवाही करेगा  
और वे बैठे रहेंगे क्योंकि अब वह पृथिवी की छोर लों  
महान् ठहरेगा ॥

और वह शान्ति का मूल होगा । जब अश्शरी हमारे ५  
देश पर चढ़ाई करे और हमारे राजभवनों<sup>८</sup> में पांव धरें  
तब हम उन के विरुद्ध सात चरवाहे बरन आठ प्रधान  
मनुष्य खड़े करेंगे । और वे अश्शर के देश को बरन ६  
पैठाव के स्थानों तक निम्नोद के देश को तलवार चला  
कर मार लेंगे और जब अश्शरी लोग हमारे देश में  
आएं और उस के सिवाने के भीतर पांव धरें तब वही  
पुरुष हम को उन से बचाएगा । और याकूब के बच ७  
हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसा  
यहोवा की आर से पड़नेहारी ओस और घास पर की  
वर्षा जो किसी के लिये नहीं ठहरती और मनुष्यों की  
बाट नहीं जोहती । और याकूब के बच हुए लोग ८  
जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे ठहरेंगे  
जैसे बनेले पशुओं में सिंह वा भेड़ बकरियों के भुंडों में  
जवान सिंह ठहरता है कि यदि वह उन के बीच से  
जाए तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा और कोई बचा  
न सकेगा । तेरा हाथ तें द्रोहियों पर पड़े और तें सब ९  
शत्रु नाश हो जाएं ॥

यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तेरे १०  
घोड़ों के तेरे बीच में से नाश करूंगा और तेरे रथों का  
विनाश करूंगा । और मैं तेरे देश में के नगरों को भी ११  
नाश करूंगा और तेरे कांटों को टा दूंगा । और मैं तेरे १२  
तन्त्र मन्त्र नाश करूंगा और तुझ में टोनहे आगे न  
रहेंगे । और मैं तेरी खुदी हुई मूरतें और तेरी लाठें तेरे १३  
बीच में से नाश करूंगा और तू आगे का अपने हाथ  
की बनाई हुई वस्तुओं का दण्डवत न करेगा । और १४  
मैं तेरी अशेरा नाम मूरतों का तेरी भूमि में से उखाड़  
डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा । और मैं १५  
अन्यजातियों से जो मेरा कहा नहीं मानतीं कोप और  
जलजलाहट के साथ पलटा लूंगा ॥

(८) मूल में फाटकों ।

६. जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो कि उठकर पहाड़ों के साम्हने २ वादविवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाएं। हे पहाड़े और हे पृथिवी की अटल नेव यहोवा का वाद-विवाद सुनो क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकद्दमा है और वह इस्राएल से वादविवाद करता है। ३ हे मेरी प्रजा मैं ने तेरा क्या किया और क्या करके तुझे ४ उकता दिया है मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिछ देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा हारून ५ और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बेर के पुत्र बिलाम ने उस को क्या सम्मति दी और शित्तीम से बंगलाल लों की बातों का स्मरण कर जिस ६ से तू यहांवा के धर्म के काम समझ सके। मैं क्या लेकर यहांवा के सन्मुख आऊँ और ऊपर रहनेहारों परमेश्वर के साम्हने भुक्कू क्या मैं होमबलि के लिये एक एक बरस के ७ बछड़े लेकर उस के सन्मुख आऊँ। क्या यहोवा हजारों मंढों से वा तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न हांगा क्या मैं अपने अग्रराध के प्राथरिचत म अपने पहिलौठे को वा अपने पाप के बदले में अपने जन्माये हुए किसी को ८ दू। हे मनुष्य यह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझ से इस को छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम कर और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के संग संग सिर झुकाये हुए चले ॥
- ९ यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और बुद्धि तेरे नाम का भय मानेगी दण्ड की और जो उसे दे रहा है १० उस की बात सुनो। क्या अब लों दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एवा धिणित नहीं है। ११ क्या मैं कसट का तराजू और घटबढ़ के बटखरों की १२ धंली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ। यहां के धनवान् लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहां के सब रहनेहार भूठ बोलते हैं और उन के मुंह से छल की बातें १३ निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल कर देता और तेरे पापों के हेतु तुझ को १४ उजाड़ डालता हूँ। तू खाएगा पर तृप्त न होगा और तेरा पेट जलता रहेगा और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा पर न बचा सकेगा और जो कुछ तू बचा भी ले उस १५ को मैं तलवार चलाकर छुटा दूंगा। तू बाएगा पर लवेगा नहीं तू जलपाई का तेल निकालेगा पर

(१) मूल में उस के मुंह में उन की जीभ धोखा देनेहारी है।

लगाने न पाएगा और दाख रौंदेगा पर दाखमधु पीने न पाएगा क्योंकि वे ओझी की विधियों पर और १६ अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं और उन की युक्तियों के अनुसार तुम चलते हो इसलिये मैं तुझे उजाड़ूंगा और इस नगर के रहनेहारों पर हथेली बजवा-ऊंगा और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहेगे ॥

७. हाय मुझ पर क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूपकाल के पल तोड़ने पर वा रही हुई दाख चीनने के समय के अन्त में आ जाए मुझे तो पक्की अजीरों की लालसा थी पर खाने के लिये कोई शुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग २ पृथिवी पर मे नाश हो गये हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा वे सब के सब खून के लिये घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का अंहर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों में भली भांति बुराई ३ करते हैं हाकिम तो कुछ मांगता और न्यायी धूस लेने को तैयार रहता है और रईस मन की दुष्टता वर्णन करता है इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उन में से जो उत्तम से उत्तम है सो कटीली ४ भाड़ी के समान दुःखदायक है जो सीधे से सीधा है सो काटे-वाले वाड़े से बुरा है तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात् तेरा दण्ड आता है सो वे शीघ्र चाँधिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो परममित्र पर भी भरोसा ५ मत रखे बरन अपनी अर्द्धांगिन<sup>२</sup> से भी संगलकर बोलना। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और पतोह सास के विरुद्ध उठती है और एक एक जन के घर ही के लोग शत्रु हांत हैं ॥

पर मैं यहांवा की और ताकता रहूंगा मैं अपने ७ उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन मुझ पर आनन्द मत ८ कर क्योंकि ज्यों मैं गिरूँ त्योंही उठूंगा और ज्यों मैं अंधकार में पड़ूँ त्योंही यहोवा मेरे लिये ज्योति का काम देगा। मैं ने जो यहांवा के विरुद्ध पाप किया इस कारण ९ मैं तब लों उस के क्रोध को सहता रहूंगा जब लों कि वह मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उस का धर्म देखूंगा। तब मेरी बैरिन जो मुझ से यह १० कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहां रहा वह भी उसे देखेगी और लजा से दंपेगी मैं अपनी आंखों से उसे

(२) मूल में अपनी गोद में, सोनेवाली।

- देखूंगा तब वह सड़कों की कीच की नाई लताड़ी  
 ११ जाएगी । तब तेरे बाड़ों के बांधने का दिन आता है  
 १२ उस दिन सीमा बढ़ाई जाएगी । उस दिन अशूर से  
 और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच  
 के और समुद्र समुद्र और पहाड़ पहाड़ के बीच के देशों  
 १३ से लोग तेरे पास आएंगे, तौभी यह देश अपने रहनेहारों  
 के कामों के कारण उजाड़ हो रहेगा ॥  
 १४ अपनी प्रजा की अर्थात् अपने निज भाग की भेड़  
 बकरियों की जो कर्मेल पर के वन में अलग बैठती है  
 तू लाठी लिये हुए चरवाही कर वे अगले दिनों की नाई  
 बाशान और गिलाद में चरा करें ॥  
 १५ जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों  
 १६ में वैसे ही मैं उम का अद्भुत काम दिखाऊंगा । अन्य-  
 जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय लजाएंगी

(१) मूल में कर्मेल के बीच ।

वह अपने मुंह को हाथ से मूंदेगी और उन के कान  
 बाहरे हो जाएंगे । वे सर्प की नाई मिट्टी चाटेंगी और १७  
 भूमि पर के रंगनेहारे जन्तुओं की भान्ति अपने कांटों में  
 से कापती हुई निकलेगी । वे हमारे परमेश्वर यहोवा के १८  
 पास थरथराती हुई आएंगी और तुझ से डर जाएगी ॥  
 तेरे समान ऐसा ईश्वर कहां है जो अधर्म को  
 क्षमा करे और अपने निज भाग के बच्चे हुआओं के  
 अपराध से आनाकानी करे वह अपने काप का  
 सदा लों बनाये नहीं रहता क्योंकि वह करुणा में  
 प्रीति रचता है । वह फिरकर हम पर दया करेगा १९  
 और हमारे अधर्म के कामों का लताड़ डालेगा तू  
 उन के सारे पापों का गहरे समुद्र में डाल देगा ।  
 तू याकूब के विषय वह गचाई और इब्राहीम के २०  
 विषय वह करुणा पूरी करेगा जिन परी विधियां तू  
 हमारे पितरों से प्राचीन काल के दिनों से लेकर  
 खाता आया है ॥

## नहूम ।

१. नीनवे के विषय भारी वचन ।  
 एल्काशी नहूम के दर्शन

- २ की पुस्तक । यहोवा जल उठनेहारा और पलटा लेनेहारा  
 ईश्वर है यहोवा पलटा लेनेहारा और जलजलाहट कर-  
 नेहारा है यहांवा अपने दोहियों से पलटा लेता है और  
 ३ अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता । यहोवा विलम्ब से  
 काप करनेहारा और बड़ा शक्तिमान है और वह दोषी  
 को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा यहांवा चबंडर  
 और आंधी में होकर चलता है और बादल उस के पांवों  
 ४ की धूलि है । उस के बुझकने से महानद सूब जाते हैं  
 और समुद्र भी निर्जल हो जाता है बाशान और कर्मेल  
 कुम्हलाने और लभानान को हरियाली जाती रहती है ।  
 ५ उस के स्पर्श से पहाड़ काप उठते और पहाड़ियां गल  
 जाती हैं उस के प्रताप से पृथिवी धरन जगत भर भी  
 ६ अपने सारे रहनेहारों समेत फूल उठता है । उम के  
 कांध का साम्हना कौन कर सकता है और जब उस का  
 काप भड़कता है तब कौन ठहर सकता उस की जल-  
 जलाहट आग की नाई भड़काई जाती और चटानें उस  
 ७ को शक्ति से फट फटकर गिरती हैं । यहोवा भला है

(१) मूल में अपने शत्रुओं के लिए रख छोड़ता है ।

संकट के दिन में वह दड़ गड़ ठहरता है और अपने  
 शरणगतों की सुधि रखता है । पर वह उमरउती हुई ८  
 धारा से उम के स्थान का अन्त कर देगा और अपने  
 शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा । तब यहांवा ९  
 के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो वह तुम्हारा अन्त  
 कर देगा विभक्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी । क्योंकि १०  
 चाहे वे कांटों में उलझे हुए हों और मरिदा के नशे में  
 चूर भी हों तौभी वे सूखी सूखी की नाई भस्म ही  
 भस्म किये जाएंगे । तुझ में से एक निकला है जो ११  
 यहोवा के विरुद्ध कुकल्पना करता और आँसू की युक्ति  
 बांधता है । यहोवा यों कहता है कि चाहे वे सब प्रकार १२  
 समर्थ और बहुन भी हों तौभी पूरी राति से काप जाएंगे  
 और वह विलाया जाएगा मैं ने तुम्हें दुःख दिया तो है  
 पर फिर न दूंगा । क्योंकि अब मैं उस का अन्त तेरी १३  
 गर्दन पर से उतारकर ताड़ डालूंगा और तेरा वस्त्र  
 फाड़ डालूंगा । और यहांवा ने तेरे विषय यह आशा १४  
 दी है कि आगे के तेरा वंश न चले मैं तेरे देशालयों में  
 से दली और गदी हुई मूरतों का काट डालूंगा मैं तेरे  
 लिये कबर खोदूंगा क्योंकि तू नीच है । देखा पहाड़ों पर १५  
 शुभसमाचार का सुनानेहारा और शान्ति का प्रचार

(२) मूल में अपने पीने में खूब भीगे हा ।



करनेहारा आ रहा है अब हे यहूदा अपने पर्य मान और अपनी मन्त्रें पूरी कर क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच हांकर न चलेगा वह पूरी रीति से नाश हुआ है ॥

## २. सत्यानाश करनेहारा तेरे विरुद्ध चढ़ आया है गढ़ को

- १ अपना बल बढ़ा दे । क्योंकि यहोवा याकूब की बड़ाई इस्राएल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर देता है उजाड़नेहारों ने उन को उजाड़ तो दिया और
- २ दाखलता की डालियों को नाश किया है । उस के शूरवीरो की ढालें लाल रंग में रंगी गईं और उस के योद्धा लाही रंग के वस्त्र पहिने हुए हैं तैयारी के दिन रथों का लोहा आग की नाई चमकता है और भाले
- ३ हिलाये जाते हैं । रथ सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते और चौकों में इधर उधर चलाये जाते हैं वे पत्तों के समान दिखाई देते हैं और उन का वेग
- ४ बिजली का सा है । वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है वे चलते चलते ठोकर खाते हैं शहरपनाह की और फुर्तों से जाते हैं और काठ का गुम्मत तैयार किया
- ५ जाता है । नहरों के द्वार खुले जाते और राजमन्दिर
- ६ गलकर बैठ जाता है । यह ठहराया गया है वह नंगी करके बन्धुआई में ले ली जाएगी और उस की दासियां छाती पीटती हुई पिंडुकों की नाई विलाप करेंगी ।
- ७ नीनवे तो जव से बनी है तब से तलाव के समान है तौभी वे भागे जाते हैं और खड़े हो खड़े हो ऐसा
- ८ पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं फेरता । चांदी के लूटों सोने के लूटों उस के रखे हुए धन की बहुतायत का कुछ परिमाण नहीं और विभव की सब प्रकार की
- ९ मनभावनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं । वह खाली और छूछी और सूनी हो गई है और मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं और उन सभों की कटियों में बड़ी पीड़ा उठी और सभों के मुख का रंग उड़ गया है ।
- १० सिहों की वह मांद और जवान सिंह के आखेट का वह स्थान कहाँ रहा जिस में सिंह और सिंहनी डारुओं समेत बेखटके चलती थीं । सिंह तो अपने डारुओं के लिये बहुत अहेर को फाड़ता था और अपनी सिंहनियों के लिये अहेर का गला घोट घोटकर ले आता था और अपनी गुफाओं और मान्दों को अहेर से भर
- ११ लेता था । सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि मैं

(१) मूल में सनीबर ।

तेरे विरुद्ध हूं और उस के रथों को भस्म करके धुंएँ में उड़ा दूंगा और उस के जवान सिंह सराखे बार तलवार से मारे जाएंगे और मैं तेरे अहेर को पृथिवी पर से नाश करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुना न जाएगा ॥

## ३. हाथ उम खूनी नगरी पर वह तो कुल और लूट के धन से भरी

- हुई है अहेर छूट नहीं जाती है । कोदों की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं । सवार चढाई करते तलवारों और भाले बिजली की नाई चमकते हैं मारे हुआओं की बहुतायत और लोगों का बड़ा डेर है मुदों का कुछ गिनती नहीं लोग मुदों से ठोकर खा खाकर चलते हैं । यह सब उम अति सुन्दर वेश्या और निपुण टोनहिन के
- द्वारा जानि जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालनी है । सेनाओं के यहोवा का यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के साम्हने नंगी और राज्य राज्य के साम्हने नीचे करके दिखाऊंगा । और मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंककर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सब से तेरी हंसी कराऊंगा । और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास में भागकर कहेंगे कि नीनवे नाश हो गई कौन उस के कारण विलाप करे हम उस के लिये शांति देनेहारे कहाँ से ढूँढ़ ले आएँ । क्या तू अमीन नगरी से बढ़कर है जो नहरों के बीच बसी थी और उस के चारों ओर जल था और उस के धुस और शहरपनाह का काम महानद देता था । कृश और मिस्री उस के अनगिनित बल देते थे पूत और लूची तेरे सहायक थे । तौभी लांग उस को बन्धुवाई में ले गये और उस के नन्हे बच्चे एक सड़क के सिरे पर पटक दिये गये और उस के प्रतिष्ठित पुरुषों के लिये उन्होंने ने चिट्ठी डाली और उस के सब रईस बेड़ियों से जकड़े गये । तू भी मतवाली होगी तू बिलायत जाएगी तू भी शत्रु के डर के मागे शरण का स्थान ढूँढ़ेगी । तेरे सब गढ़ ऐमे अंजीर के वृत्तों के समान होंगे जिन में पहिले पके अंजीर लगे हों याद वे हिलाये जाएँ तो फल खानेहारे के मुंह में गिरेंगे । देख तेरे लोग जाँ तेरे बीच में हैं सो लुगाई हैं तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिये बिलकुल खुले पड़े हैं और तेरे बेखटे आग के कीर हो

(२) मूल में लूट हट नहीं जाती ।

(३) मूल में छिप ।

- १४ गये हैं । धिर जाने के दिनों के लिये पानी भर ले और कोटों को अधिक दृढ़ कर कीचड़ में आकर गारा लताड़  
 १५ और भट्टे को सजा । वहां तू आग में भस्म होगी और तू तलवार से नाश हो जाएगी वह येलोक नाम टिड्डी की नाई तुझे निगल जाएगी येलोक नाम टिड्डी के समान अबें नाम टिड्डी के समान अनगिनित हो जाएगी ।  
 १६ तेरे ब्योपारी आकाश के तारागण से भी अधिक अन-  
 १७ गिनित हुए टिड्डी छीलकर उड़ गई है । तेरे मुकुटधारी लोंग टिड्डीयों के समान और तेरे सेनापति टिड्डीयों के दलों सरीखे ठहरेंगे जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर

टिकते हैं पर जब सूर्य दिखाई देता तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहां गये । हे अशशर के १८ राजा तेरे ठहराये हुए चरवाहे ऊंघते हैं तेरे शूरवीर भारी नीन्द में पड़ गये हैं तेरी प्रजा पहाड़ों पर तित्तर बित्तर हो गई है और कोई उन को फिर इकट्ठे नहीं करता । तेरा घाव पूज न सकेगा तेरा रोग असाध्य है १९ जितने तेरा समाचार सुनेंगे सो तेरे ऊपर ताली बजाएंगे क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर लगातार तेरी दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो ॥

## हवक्कुक ।

### १. भागी वचन जिस को हवक्कुक नबी ने दर्शन में पाया ॥

- २ हे यहोवा मैं कब लों तेरी दोहाई देता रहूँ और तू न सुने मैं तुझ से उपद्रव उपद्रव ऐसा चिल्लाता हूँ और  
 ३ तू उद्धार नहीं करता । तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता और क्या कारण है कि तू आप उत्पात को देखता रहता है और मेरे साम्हने लूट पाट और उपद्रव होते रहते हैं और भगड़ा हुआ करता और वादाविवाद बढ़ता जाता है । इस के कारण व्यवस्था ढीली हो जाती है  
 ४ और न्याय कभी नहीं प्रगट होता दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं और इस कारण न्याय उलटा हांकर प्रगट होता है ॥  
 ५ अन्यजातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि चाहे वह तुम को बताया भी जाए  
 ६ तौभी तुम उस की प्रतीति न करोगे । देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूँ वे क्रूर और उतावली करनेहारी जाति हैं जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिये  
 ७ पृथिवी भर में फैल जाते हैं । वह भयानक और डरावनी है उस का विचार और उस की बड़ाई उसी से होती  
 ८ हैं । और उन के छोड़े चीतों से भी अधिक वेग चलने-हारे सांभ को अट्टर करते हुए हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं और उस के सवार दूर दूर फैल जाते हैं और अहरे पर  
 ९ भपटनेहारे उकाव की नाई भपट्टा मारते हैं । वह सब फा० १०१

के सब उपद्रव करने को आते हैं वे मुख साम्हने की ओर किये हुए हैं और वे बंधुओं को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं । और वह राजाओं को ठट्टों में उड़ाता १० और हाकिमों का उपहास करता है वह सब दृढ़ गदों पर भी हंसता क्योंकि वह धुस बांधकर उन को ले लेता है । तब वह वायु की नाई चला आएगा और मर्यादा छोड़कर ११ दोपी ठहरंगा उस का बल ही उस का देवता है ॥  
 हे मेरे परमेश्वर यहोवा हे मेरे पवित्र ईश्वर १२ क्या तू अनादि काल से नहीं है इस कारण हम लोग नहीं मरने के हे यहोवा तू ने उस को न्याय करने के लिये ठहराया होगा हे चटान तू ने उलाहना देने के लिये उस को बैठाया है । तू तो ऐसा शुद्ध है कि बुराई को १३ देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता और जब दुष्ट उस को जो उस से कम दोपी है निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है । और तू क्यों मनुष्यों को १४ समुद्र की मल्लियों के और उन रेंगनेहारे जन्तुओं के समान जिन के राजा नहीं होता कर देता है । वह उन १५ सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीट लेता और महाजाल में फंसा लेता है इस कारण वह आनन्दित और भगन रहता है । इस कारण वह अपने जाल के साम्हने बलि चढ़ाता १६

और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा उस का भाग पुष्ट होता और उस का १७ भोजन चिकना होता है । पर क्या वह इस कारण जाल को खाली कर देगा और जाति जाति के लोगों को १८ लगातार निर्दयता से घात करने पाएगा ॥

२. मैं अपने पहरे पर खड़ा हूंगा और गुम्मत पर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि देखूं मुझ से वह क्या कहेगा और मैं अपने २ दिये हुए उलाहने के विषय क्या कहूँ । यहाँवा ने मुझ से कहा दर्शन की बातें लिख दे बरन पटियाओं पर ३ साफ साफ लिख दे वे सहज से पढ़ी जाएँ । क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होनकारा है बरन इस के पूरी होने का समय वेग आता है और इस में धोखा न होगा सो चाहे इस में विलम्ब हो तौभी उस की बात जोहता रहना क्योंकि यह निश्चय पूरी ४ होगी और इस में अवेर न होगी । देख उस का मन फूला हुआ है वह सीधा नहीं है पर धर्मी अपने ५ विश्वास के द्वारा जीता रहेगा । फिर दाखमधु से धोखा होता है अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उस की लालसा अधोलोक की सी पूरी नहीं होती और मृत्यु की नाई उस का घेठ नहीं भरता अर्थात् वह सब जातियों के अपने पास खींच लेता और सब देशों ६ के लोगों के अपने पास इकट्ठे कर रखता है । क्या वे सब उस का दृष्टान्त चलाकर और उस पर ताना मार कर न कहेंगे कि हाय उस पर जो पराया धन लीन लीनकर धनवान हो जाता है । कब लो । हाय उस पर ७ जो अपना घर बन्धक की वस्तुओं से भर लेता है । क्या वे लोग अचानक न उठेंगे जो तुझ से ब्याज लेंगे और क्या वे न जागेंगे जो तुझ के संकट में डालेंगे ८ और क्या तू उन से लूटा न जाएगा । तू ने जो बहुत सी जातियों के लूट लिया है सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे इस का कारण मनुष्यों का खून है और वह उपद्रव भी जो तू ने इस देश और राजधानी और इस के सब रहनेहारों पर किया है ॥

९ हाय उस पर जो अपने घर के लिये अन्याय से लाभ का लोभी है इसलिये कि वह अपना घोंसला १० ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे । तू ने बहुत

सी जातियों के काट डालकर अपने घर के लिये लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण की हानि की है । क्योंकि घर की भीत का पत्थर दोहाई देता और ११ उस की छत की कड़ी उन के स्वर में स्वर मिला देती है ॥

हाय उस पर जो खून कर करके नगर को बनाता १२ और कुटिलता कर करके गढ़ी को दृढ़ करता है । देखो क्या यह सेनाओं के यहोवा की आंर से नहीं १३ होता कि देश देश के लोग परश्रम तो करते हैं पर वह आग का कौर होने का होता है और राज्य राज्य के लोग धक जाते तो हैं पर व्यर्थ ही ठहरेगा । क्योंकि १४ पृथिवी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से ॥

हाय उस पर जो अपने पड़ोसी के मंदिरा पिलाता १५ और उस में विप मिलाकर उस के मतवाला कर देता है कि वह उस के नगा देखे । तू महिमा की सन्ती १६ अपमान ही से भर गया तू भा पी जा और तू खतनाहीन है जो कटोरा यहोवा के दहिने हाथ में रहता है सो घूमकर तेरी आंर भी जाएगा और तेरा विभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा । क्योंकि लवानोन में १७ जो उपद्रव तेरा किया हुआ है और वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उन्मात जिस से वे भयभीत हो गये थे तुझ पर आ पड़ेंगे यह मनुष्यों के खून और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इस के सब रहनेहारों पर किया गया है ॥

खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनानेहारे १८ ने उमे खोदा है फिर भूठ पर चलानेहारी ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालनेहारे ने उस पर इतना भरोसा रक्खा है कि अनवाल और निकम्मी मूरत बनाए । हाय उस पर जो काठ से कहता है कि जाग १९ वा अनवाल पत्थर से कि उठ क्या वह सिखाएगा देखो वह सोने चांदी में मड़ा हुआ तो है पर उस में आत्मा नहीं है । यहोवा अपने पावित्र मन्दिर में है २० ममस्त पृथिवी उस के साम्हने चुपकी रहे ॥

३. हवक्कूक नबी की प्रार्थना ।

शिग्योर्नात की रीति पर ॥

हे यहोवा मैं तेरी कीर्त्ति सुनकर डर गया २  
हे यहाँवा बरसों के भीतते अपने काम में फिर  
हाथ लगा

(१) मूल में क्या उत्तर हूँ ।

(२) मूल में जिस से उस का पड़ानेहारा दीड़े ।

(३) मूल में बरन वह अन्त की ओर हाँकती हैं ।

(४) मूल में निश्चय आएगी ।

(५) मूल में जैसे जल समुद्र को ढाँपता है ।

- ३ बरसों के बीतते तू उस को प्रकट कर  
क्रोध करते हुए भी दया करना न भूल ॥  
ईश्वर तेमान से  
अर्थात् पवित्र इश्वर पारान पर्वत से आ रहा  
है । संला ।
- ४ उस का तेज आकाश पर छाया हुआ है  
और पृथिवी उस की स्तुति से परिपूर्ण हुई है ॥  
और उस की ज्योति सूर्य की सी है  
उस के हाथ से किरणें निकल रही हैं  
और उस का सामर्थ्य छिपा हुआ है ॥
- ५ उस के आंगे मरी फैल रही है  
और उस के पीछे पीछे महाज्वर निकल रहा है ॥  
वह खड़ा होकर पृथिवी को आंक रहा है  
वह जाति जाति को आख दिखाकर घबरा  
रहा है  
और सनातन पर्वत तित्तर तित्तर हो रहे हैं  
और सनातन की पहाड़ियां भुक रही हैं  
उस की गति सदा एक सी रहती है ॥
- ६ मुझे कृशान के तंबू में रहनेहार दुःख से दबे देख  
पड़ने हैं  
और मिथान् देश के डेरें थरथरा रहे हैं ॥
- ८ क्या यद्वावा न दयों पर रिभियाया है  
क्या तेरा कांप नदियों पर भड़का है  
क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़का है  
तू अपने घोंड़ों पर और उद्धार करनेवाले रथों पर  
चढ़कर आ रहा है ॥
- ९ तेरा धनुष खोल में से निकाला हुआ है  
तेरे दण्ड का वचन किरिया के साथ हुआ है  
तू धरती को फाड़कर बहुत सी नदियां निकाल  
रहा है ॥
- १० पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे हैं  
आधी चल रही है पानी पड़ रहा है  
गहिरा सागर बोलता और हाथ उठाता है
- ११ सूर्य और चन्द्रमा अपने अपने स्थान में  
ठहरें हैं ॥
- १२ तेरे तीरों के चलने से ज्योति  
और तेरे भाले के चमकने से प्रकाश हो रहा है

- तू क्रोध में आकर पृथिवी पर चलता हुआ  
जाति जाति को कांप से दांशता जा रहा है ॥  
तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिये निकला  
अर्थात् अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के  
लिये निकला  
तू दुष्ट के घर के सिर को फोड़कर  
उस के गले लों नेव को उघाड़ रहा है<sup>१</sup> । संला ।  
तू उस के यांदाओं के सिरों का उस की बड़ों से  
छेद देता है  
वे मुझ को तित्तर तित्तर करने के लिये आधी की  
नाईं तो आये  
और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने  
की आशा से हुलसते आये ॥  
तू अपने घोंड़ों समेत समुद्र पर  
अर्थात् बहुत जल के ढेर पर चला है ॥  
यह सब सुनते ही मेरा कलेजा थरथरा उठा  
मेरे हाँठ कांप गये  
मेरी हाडिया पिराने लगीं और मैं खड़े खड़े कांप  
उठा  
कि मैं उस दिन की बाट शान्ति से जाहता रहूं  
जय दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे ॥  
क्योंकि चाहे न तो अजीर के वृक्षों में फूल  
और न दाखलताओं में फल लगे  
और जलवाई के वृक्ष से वेधल धोखा पाया जाए  
और खेतों में अन्न न उपजे  
और न तो भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां रह जाएं  
और न थानों में गाथ ब्रैल रहें ॥  
तौभी मैं यद्वावा के कारण हुलसूगा  
और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के हेतु मगन  
हूंगा ॥  
यद्वावा प्रभु मेरा बलमूल है  
और वह मेरे पांव हरिणों के से करेगा  
और मुझ को मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाएगा ॥  
प्रधान वचनहार के लिये मेरे तारवाल बालों में साथ ।

(१) मूल में गले लों नेव नगी करनी ।

# सपन्याह ।

१. आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशियाह के दिनों में यहोवा का जो वचन सपन्याह के पास पहुंचा जो हिजकियाह के पुत्र अमर्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और कूशी का पुत्र था । मैं धरती पर से सब का अन्त कर दूंगा यहोवा की यही वाणी है । मैं मनुष्य और पशु दोनों का अन्त कर दूंगा मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उन की रक्खी हुई ठोकरों का भी अन्त कर दूंगा मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर दालूंगा यहोवा की यही वाणी है । और मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहनेहारों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बच्चे हुआओं के और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा । और जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दण्डवत् करते और जो लोग दण्डवत् करते हुए इधर तो यहोवा की सेवा करने की किरिया खाते और अपने मोलेक की भी किरिया खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से फिर गये हैं और जिन्होंने न तो यहोवा को डूँडा न उसकी खोज में लगे उन का भी मैं नाश कर दालूंगा ॥
- ७ प्रभु यहोवा के साम्हने चुपके रहे क्योंकि यहोवा का दिन निकट है यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया और अपने नेवतहरियों को पवित्र किया है । और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहिना करते हैं उन को भी दण्ड दूंगा ।
- ९ और उस दिन मैं उन सभी को दण्ड दूंगा जो डेवहों को लांधते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं । और यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मल्लूली फाटक के पास चिल्लाहट का और नये टाले में हाहाकार का और टीलों पर बड़ी धड़ाम का शब्द होगा । हे मक्केश के रहनेहारो हाय हाय करो क्योंकि सब व्यापारी मिट गये जितने चाँदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है । उस समय मैं दीपक लिये हुए यरूशलेम में दूँड दूँड करूँगा और जो लोग थिराये हुए

दाखमधु के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा उन को मैं दण्ड दूंगा । तो उन की धन संपत्ति लूटी जाएगी और उन के घर उजाड़ होंगे वे घर तो बनाएंगे पर उन में रहने न पाएंगे और वे दाख की बारियां तो लगाएंगे पर उन से दाखमधु पीने न पाएंगे । यहोवा का भयानक दिन निकट है वह बहुत वेग से नियरता चला आता है यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है वहाँ वीर दुःख के मारे चिल्लाता है । वह रोप का दिन होगा वह संकट और संकेती का दिन वह उजाड़ और उखाड़ का दिन वह अंधेरे और घोर अंधकार का दिन वह बादल और काली घटा का दिन होगा । वह गढ़वाले नगरों और ऊँचे गुम्मतों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा । और मैं मनुष्यों के संकट में दालूंगा और वे अधों की नाई चलेंगे क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और उन का लोह धूलि के समान और उन का मांस विष्टा सरीखा फेंक दिया जाएगा । और यहोवा के रोप के दिन में न तो चाँदी से उन का बचाव हाँगा और न सोने से क्योंकि उस के जलन की आग से सारी पृथिवी भस्म हो जाएगी क्योंकि वह तो पृथिवी के सारे रहनेहारों को घबरवाकर उन का अन्त कर दालेगा ॥

२. हे निर्लज्ज जाति के लोगो इकट्ठे हो उस से पहिले इकट्ठे हो कि दण्ड की आशा पूरी हो जाए और बचाव का दिन भूसी की नाई निकल जाए और यहोवा का भड़कता हुआ कोप तुम पर आ पड़े और यहोवा के कोप का दिन तुम पर आए । हे पृथिवी के सब नम्र लोगो हे यहोवा के नियम के माननेहारो उस को दूँडते रहो धर्म को दूँडे नम्रता को दूँडे क्या जाने तुम यहोवा के कोप के दिन में शरण पाओ । क्योंकि अजा तो निर्जन और अशकलोन उजाड़ हो जाएगा अशदोद के निवासी दिनदुपहरी निकाल दिये जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा

(१) मूल में उडेल । (२) या देश ।

(३) एक्रोन शब्द का अर्थ उखाड़ है ।

५ जाएगा । हाथ समुद्रतीर के रहनेहारों पर हाथ करेनी जाति पर हे कनान हे पलिशियों के देश यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है मैं तुझ को ऐसा नाश करूंगा कि ६ तुझ में कोई न रहेगा । और उसी समुद्रतीर पर चरवाहों के घरों और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराइ होगी । ७ अर्थात् वही समुद्रतीर यहूदा के घराने के बच्चे हुआ को मिलेगी वे उस पर चराएंगे वे अश्कलान के छोड़े हुए घरों में सांभ को लेटेंगे क्योंकि उन का परमेश्वर यहोवा उन की सुधि लेकर उन क बन्धुओं का लोटा ले जाएगा । ८ मोआब ने जो मेरी प्रजा की नामधराई और अम्मोनियों ने जो उस की निन्दा करके उस के देश की सीमा ९ पर चढ़ाई की सो मेरे कानों तक पहुंची है । इस कारण इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सो निश्चय मोआब सदोम के समान और अम्मोनी अमोरा के तुल्य बिच्छू पेड़ों के स्थान और लान की खानियां हा जाएंगे और सदा लों उजड़े रहेंगे और मरी प्रजा के बच्चे हुए उन को लूटेंगे और मरी जाति क रहे हुए लोग उन १० को अपने भाग में पाएंगे । यह उन के गव्वों का पलटा होगा उन्होंने ने तो सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नाम- ११ धराई की और उस पर बड़ाई मारी है । यहोवा उन को डगवना दिखाई देगा वह पृथ्वी भर के देवताओं का भूखा मार डालेगा और अन्य जातियों के सब द्वीपों के १२ निवासी अपने अपने स्थान से उस का दण्डवत् करेंगे । हे १३ कुशियों तुम भी मेरी तलवार से मार जाओगे । वह अपना हाथ उत्तर दिशा की और बढ़कर अश्शूर को नाश करेगा और नानवे को उजाड़ धरन जंगल के समान १४ निर्जल कर देगा । और उस के बीच में भुण्ड के सब जाति के बनेले पशु भुण्ड के भुण्ड बैठेंगे और उस के खंभों का कंगनियों पर घनेश और साही दोनों रात को बसेगा करेंगे और उसका खिड़कियों में बोल करेगे उस का डेवदियां सूनी पड़ी रहेंगी और देवदार की लकड़ी १५ उधारी जाएगी । यह तो वहा नगरी है जा हुलसता और निडर बैठा रहता था और मोचता था कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं पर अब यह उजाड़ और बनेले पशुओं के बैठन का स्थान बन गया है यहां लों कि जो कोई इस के पास होकर चले सो हथेली बजाएगा और हाथ चमकाएगा ॥

### ३. हाथ बलवा करनेहारी और अशुद्ध और अन्धे से भरी हुई नगरी

(१) मूल में अपना लेंगे ।

पर । उस ने मेरी नहीं सुनी उस ने ताड़ना से नहीं २ माना उस ने यहोवा पर भरोसा नहीं रक्खा वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई । इस में ३ के हाकिम गरजनेहारे सिंह ठहरे इस के न्याया सांभ का अहर करनेहार हुंडार हैं जो बहान के लिये कुछ नहीं छोड़ते । इस के नबा फूहर बकनदारे और विश्वासघाती ४ हैं इस के याजकों ने पावनस्थान को अशुद्ध और व्यवस्था में खींचखाव की है । यहोवा जो उस के बीच में है ५ सो धर्मी है वह कुटलता न करेगा वह अपना न्याय भोर भोर ागट करता है चूकता नहीं पर कुटल जन का लाज आती हा नहीं । मैं ने अन्यजातियों को नाश ६ किया यहा लों कि उन के कोनवाले गुम्मत उजड़ गये मैं न उन की सड़का को सूनी किया यहां ला कि कोई उन पर नहीं चलता उन के नगर यहां ला नाश हुए कि उन में कोई मनुष्य बरन कोई भी प्राणी न रहा । मैं ने कहा अब ता तू मेरा भय मानगी और ७ मेरी ताड़ना अगीकार करेगी जिस से उन का धाम उस सब के अनुसार जा मैं ने ठहराया था नाश न हा पर वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे । इस ८ कारण यहोवा की यह वाणी है कि जब लों मैं नाश करन का न उठूं तब लों तुम मरी भाट जाहते रहा मैं ने यह ठाना है कि जात जात के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा कि उन पर अपने कोप का आग पूरा रात स भड़काऊं क्या सो समस्त पृथिवीं मेरा जलन की आग स नसम हा जाएगी । और उस समय मैं देश ९ दश के लागों से एक नई और शुद्ध भावा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्राथना करें और एक मन से काधा जाड़े हुए उस का सेवा करें । मेरी १० तित्तर बित्तर का हुई प्रजा मुझ से बिनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी । उस दिन क्या तू अपने सब ११ बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझ से फिर गई लाज्जत न होगी उस समय तो मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पावन पवत पर फिर कभी आभमान न करेगी । और मैं तेरे बीच १२ में दीन और कंगाल लागों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम का शरण लेंगे । इस्राएल के बच्चे १३ हुए लोग न तो कुटलता करेंगे और न भूठ बोलेंगे और न उन के मुंह से छल की बातें निकलेंगी वे चरेंगे

(२) मूल में रहनेहारा । (३) मूल में तबके उठ कर । (४) मूल में एक कंधे या पीठ में । (५) मूल में किये हुआ की बेटी । (६) मूल में मुंह में छली जीभ पाई जायगी ।

- १४ और बैठा करेंगे और कोई डरानेहारा न होगा । हे सियोन' ऊंचे स्वर से गा हे इस्राएल जयजयकार कर हे यरूशलेम<sup>२</sup> अपने सारे मन से आनन्द कर
- १५ और हलस । यहोवा ने तेरा दण्ड भोगना बन्द किया और तेरा शत्रु दूर किया इस्राएल का राजा यहोवा तेरे
- १६ बीच में है सो तू फिर विपत्ति न भोगेगी । उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा कि मत डर और
- १७ सियोन से यह कि तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए । तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है वह उद्धार करने में पराक्रमी है वह तेरे कारण आनन्द में मगन होगा वह अपने प्रेम के मार्ग चुपका रहेगा फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा ॥
- १८ जो लोग नियत पर्व के विषय खेदित रहते हैं उन को मैं इकट्ठा करूंगा क्योंकि वे तेरे तो हैं और
- (१) मूल में सियोन की बंटी । (२) मूल में यरूशलेम की बंटी ।

उस की नामधराई उन को बोझ जान पड़ती है । उस १९ समय मैं उन सभों से जो तुम्हें दुःख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और लंगड़ानेहारों<sup>३</sup> को चंगा करूंगा और बरबस निकाले<sup>४</sup> हुआ को इकट्ठा करूंगा और जिन की लज्जा की चर्चा समस्त पृथिवी पर फैली है उन की प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा । उसी २० समय मैं तुम्हें ले आऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे साम्हने तुम्हारे बन्धुओं को लौटा लाऊंगा तब पृथिवी की सारी जातियों के बीच तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला<sup>५</sup> दूंगा यहोवा का यही वचन है ॥

(३) मूल - लंगड़ानेहारी । (४) मूल में निकालो हुई ।

(५) मूल में उन की प्रशंसा और कीर्ति नह-लाऊंगा

(६) मूल में तुम को कीर्ति और प्रशंसा ठहराऊंगा ।

## हागौ ।

१. दारा राजा के दूसरे बरस के छठवें महीने के पहिले दिन यहोवा का यह वचन हागौ नबी के द्वारा शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास जो यहूदा का अधिपति था और यहोसादाक के पुत्र यहांशू महायाजक के पास पहुंचा
- २ कि, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि ये लोग तो कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने को हमारे आने
- ३ का समय अभी नहीं है । फिर यहोवा का यह वचन
- ४ हागौ नबी के द्वारा पहुंचा कि, क्या तुम्हारे लिये अपने छतवाले घरों में रहने का समय है और यह भवन
- ५ उजाड़ पड़ा है । सो अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि अपनी अपनी चालचलने को सोचो विचारा ।
- ६ तुम ने बोया बहुत पर लवा थोड़ा तुम खाते हों पर पेट नहीं भरता तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती तुम कपड़े पहिनते पर गरमाते नहीं और जो मजूरी कमाता है सो उसे कमाकर फटी हुई थैली में डाल
- ७ देता है । सेनाओं का यहोवा तुम से यों कहता है कि
- ८ अपने अपने चालचलन को सोचो । पहाड़ पर चढ़ कर लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और

मैं उस को देखकर प्रसन्न हूंगा और मेरी महिमा होगी यहोवा का यही वचन है । तुम ने बहुत उपज की आशा ९ रक्खी पर देखो थोड़ी ही है फिर जब तुम उसे घर ले आये तब मैं ने उस को उड़ा दिया सेनाओं के यहोवा का यह वाणी है कि इस का क्या कारण है क्या यह नहीं कि मेरा भवन तो उजाड़ पड़ा है और तुम अपने अपने घर के लिये दौड़ धूप करते हो । इस १० कारण आकाश से ओस गिरनी और पृथिवी से अन्न उपजना दोनों बन्द हैं । और मेरी आज्ञा से पृथिवी पर ११ सूखा पड़ा पृथिवी पर और पहाड़ों पर और अन्न और नये दाखमधु और टटके तेल पर और जो कुल्ल भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेले पशुओं पर और उन के परिश्रम को सारी कमाई पर भी ॥

तब शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसा- १२ दाक के पुत्र यहांशू महायाजक ने सब बच हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की मानी और जो वचन उन के परमेश्वर यहोवा ने उन से कहने के लिये हागौ नबी को भेज दिया उन्हें मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना । तब यहोवा के वृत हागौ ने १३

यहोवा से यह आशा पाकर उन लोगों से कहा कि  
 १४ यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। फिर  
 यहोवा ने शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल को जो यहूदा  
 का अधिपति था और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महा-  
 याजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को ऐसा  
 उभारा कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा  
 १५ के भवन बनाने में काम करने लगे। यह दारा राजा के  
 दूसरे बरस के छठवें महीने की चौबीसवें दिन को हुआ ॥

२. फिर मातर्वे महीने के दसवीं दिन  
 को यहोवा का यह वचन हागो

२ नबी के पास पहुंचा कि, शालतीएल के पुत्र यहूदा के  
 अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू  
 महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह  
 ३ कि, तुम में से कौन रह गया जिस ने इस भवन की  
 पहिली महिमा देवी अब तुम इस का कैसी दशा देखते  
 हो क्या यह सब नहीं कि यह तुम्हारे लेखे उस का  
 ४ अपेक्षा कुछ है ही नहीं। नौबी अब यहोवा का यह  
 वाणी है कि हे जरुब्बाबेल हियाव बांध और हे यहोसा-  
 दाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध और याचा  
 की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगो  
 हियाव बांधकर काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ  
 ५ सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे साथ  
 मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैं ने बांधी थी  
 उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे मध्य में बना  
 ६ है मेरा तुम मत डरो। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों  
 कहता है कि अब थोड़ी ही बेर बाकी है कि मैं आकाश  
 और पृथिवी और समुद्र और स्थल सब को कंपाऊंगा।  
 ७ और मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और मारी जातियों  
 की मनभावनी वस्तुएं आएगी और मैं इस भवन को  
 तेज से भर दूंगा सेनाओं के यहोवा का यह वचन है।  
 ८ चान्दी तो मेरी है और सेना भी मेरी ही है सेनाओं  
 ९ के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिडली  
 महिमा इस की पहिली महिमा से बड़ी होगी सेनाओं  
 के यहोवा का यही वचन है और इस स्थान में मैं शांति  
 दूंगा सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।  
 १० दारा के दूसरे बरस के नौवें महीने के चौबीसवें  
 दिन को यहोवा का यह वचन हागो नबी के पास  
 ११ पहुंचा कि, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि याजकों

से इस बात की व्यवस्था पूछ कि, यदि कोई अपने वस्त्र १२  
 के अंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी अंचल से रोटी वा  
 सिक्के हुए भोजन वा दाखमधु वा तेल वा किसी  
 प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठह-  
 रेगा याजकों ने उत्तर दिया कि नहीं। फिर हागो ने १३  
 पूछा कि यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण  
 अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह  
 अशुद्ध ठहरेगी याजकों ने उत्तर दिया कि हां अशुद्ध  
 ठहरेगी। फिर हागो ने कहा यहोवा की यह वाणी है १४  
 कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही  
 है और इन के सब काम भी वैसे हैं और जो कुछ वे  
 वहा चढ़ाते हैं मेरा भी अशुद्ध है। अब मोच विचार करो १५  
 कि आज से पहिले अर्थात् जब यहोवा के मन्दिर में  
 पत्थर पर पत्थर रक्त्वा न गया था, उन दिनों में जब १६  
 कोई यज्ञ के बीच नपुत्रों के पास जाता तब दस ही  
 पाता था और जब कोई दाखमम कुरड के पास इस  
 आशा से जाता कि पचास वत् निकले तब बीस हा  
 निकलते थे। मैं ने तुम्हारी मारी खेती को लूह और १७  
 गेरुई और ओलों से मारा तो भी तुम मेरी ओर न फिर  
 यहोवा की यही वाणी है। और अब मोच विचार करो १८  
 कि आज से पहिले अर्थात् जिस दिन यहोवा के मन्दिर  
 की नेव डाली गई उस दिन से लेकर नौवें महीने की  
 इसी चौबीसवें दिन लों क्या दशा थी इस का मोच  
 विचार तो करो। क्या अब लों अब खेत में रक्त्वा गया १९  
 है मेरा नहीं अब लों तो दाखलता और अंजीर और  
 अनार और जलपाई के वृत्त नहीं फले पर आज के दिन  
 से मैं आशाप देता रहूंगा ॥

फिर उसी महीने के चौबीसवें दिन को दूसरी २०  
 बार यहोवा का यह वचन हागो के पास पहुंचा कि,  
 यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यों कह कि मैं आकाश २१  
 और पृथिवी दोनों को कंपाऊंगा। और मैं राज्य राज्य २२  
 को गद्दी को उलट दूंगा और अन्यजातियों के राज्य राज्य  
 का बल ताड़ूंगा और रथों को चढवैयों समेत उलट दूंगा  
 और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे को तलवार से गिरंगे।  
 सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन हे २३  
 शालतीएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल मैं तुम्हें लेकर  
 मुन्दरी के समान रक्त्वा यहोवा की यही वाणी है  
 क्योंकि मैं ने तुम्हें को चुन लिया है सेनाओं के यहोवा  
 की यही वाणी है ॥



# जकर्याह

१. दारा के राज्य के दूसरे बरस के आठवें महीने में यहोवा का यह वचन जकर्याह नबी के पास जो बेरेक्याह का पुत्र और इहो का पोता था पहुंचा कि, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। सो तू इन लोगों से कह कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरी आर फिरो तब मैं तुम्हारी आर फिरूंगा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अपने पुरखाओं के समान न बनो उन से तो अगले नबी यह पुकार पुकारकर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो पर उन्होंने न तो सुना न मेरी ओर ध्यान दिया यहोवा की यही वाणी है।
- ५ तुम्हारे पुरखा कहां रहे और नबी क्या सदा लों जीते रहें। पर मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिन को मैं ने अपने दास नबियों को दिया था क्या वे तुम्हारे पुरखाओं के विषय पूरी न हुईं? तब उन्होंने फिरकर कहा कि सेनाओं के यहोवा ने हमारे चालचलन और कामों के अनुसार हम से जैसा व्यवहार करने का कहा था वैसा ही उस ने हम से किया भी है ॥
- ७ दारा के दूसरे बरस के शवात नाम ग्यारहवें महीने के चौबीसवें दिन को जकर्याह नबी के पास जो बेरेक्याह का पुत्र और इहो का पोता है यहोवा का वचन यों पहुंचा कि, मैं ने रात को क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेंहदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में हैं और उस के पीछे लाल और सुरंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैं ने कहा कि हे मेरे प्रभु ये कौन हैं तब जो दूत मुझ से बातें करता था उस ने मुझ से कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कौन हैं। फिर जो पुरुष मेंहदियों के बीच खड़ा था उस ने कहा वे हैं जिन को यहोवा ने पृथिवी पर फेरा करने के लिये भेजा है। तब उन्होंने ने यहोवा के उस दूत से जो मेंहदियों के बीच खड़ा था कहा कि हम ने पृथिवी पर फेरा किया है और क्या देखा कि १२ सारी पृथिवी चैन से चुपचाप रहती है। तब यहोवा के

(१) मूल में क्या उन्होंने तुम्हारे पुरखाओं को न जा लिया।

दूत ने कहा हे सेनाओं के यहोवा तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर सत्तर बरस से क्रोधित है सो उन पर कब लों दया न करेगा। और यहोवा ने उत्तर देकर १३ उस दूत से जो मुझ से बातें करता था अच्छी अच्छी और शान्ति की बातें कहीं। तब जो दूत मुझ से बातें १४ करता था उस ने मुझ से कहा तू पुकारकर कह कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मुझे यरूशलेम और सिव्योन के लिये बड़ी जलन हुई है। और जो १५ जातियां सुख से रहती हैं उन से मैं क्रोधित हूँ क्योंकि मैं ने तो थोड़ा सा क्रोध किया था पर उन्होंने ने विपत्ति का बड़ा दिया। इस कारण यहोवा यों कहता है कि १६ अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ मेरा भवन उस में बनेगा और यरूशलेम पर मापने की डोरी डाली जाएगी सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर यह भी पुकारकर कह कि सेनाओं का यहोवा यों १७ कहता है कि मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सिव्योन को शान्ति देगा और यरूशलेम का फिर अपना ठहराएगा ॥

फिर मैं ने जो आंखें उठाईं तो क्या देखा कि चार १८ सींग हैं। तब जो दूत मुझ से बातें करता था उस से १९ मैं ने पूछा कि ये क्या हैं उस ने मुझ से कहा ये वे ही सींग हैं जिन्होंने ने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तित्तर वित्तर किया है। फिर यहोवा ने मुझे चार २० लोहार दिखाये। तब मैं ने पूछा कि ये क्या करने को आते हैं उस ने कहा कि ये वे ही सींग हैं जिन्होंने ने यहूदा को ऐसा तित्तर वित्तर किया कि कोई सिर न उठा सका पर ये लोग उन्हें भगाने के लिये और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिये आये हैं जिन्होंने ने यहूदा के देश को तित्तर वित्तर करने के लिये उस के विरुद्ध अपने अपने सींग उठाये थे ॥

२. फिर मैं ने जो आंखें उठाईं तो क्या देखा कि हाथ में मापने की डोरी लिये हुए एक पुरुष है। तब मैं ने उस ने पूछा २ कि तू कहां जाता है उस ने मुझ से कहा यरूशलेम को मापने का जाता हूँ कि देखू कि उस की चौड़ाई कितनी और लम्बाई कितनी है। तब मैं ने क्या देखा कि जो ३

दूत मुझ से बातें करता है सो जाता है और दूसरा  
 ४ दूत उस से मिलने के लिये आकर, उस से कहता है  
 दौड़कर इस जवान से कह कि यरूशलेम मनुष्यों और  
 घरेले पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर  
 ५ बाहर भी बसेगी<sup>१</sup> । और यहोवा की यह वाणी है कि  
 मैं आप उस के चारों ओर आग की सी शहरपनाह  
 ठहराऊँगा और उस के मध्य में तेजोमय होकर दिखाई  
 ६ दूंगा<sup>२</sup> । यहोवा की यह वाणी है कि अहो अहो उत्तर  
 के देश में से भाग जाओ क्योंकि मैं ने तुम को आकाश  
 के चारों वायुओं के समान उत्तर बित्तर किया है ।  
 ७ अहो बाबेलवाली जाति<sup>३</sup> के संग रहनेहारी सियोन  
 ८ बचकर निकल आ । क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों  
 कहता है कि उस तेज प्रगट होने के पीछे उस ने मुझे  
 उन जानियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती हैं क्योंकि  
 जो तुम को छूता है सो उस की आंख की पुतली ही को  
 ९ छूता है । क्योंकि सुनो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊँगा<sup>४</sup>  
 तब वे उन से लूटे जाएंगे जो उन के दास हुए थे और  
 तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है ।  
 १० हे सियोन ! ऊंचे म्वर से गा और आनन्द कर क्योंकि  
 देख मैं आकर तेरे बीच में बस करूँगा यहोवा की यही  
 ११ वाणी है । उस समय बहुत सी जातियाँ यहाँवा से मिल  
 जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएगी और मैं तेरे मध्य में  
 बस करूँगा और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने  
 १२ मुझे तेरे पास भेज दिया है । और यहोवा यहूदा को  
 पवित्र देश में अपना भाग जान लेगा और यरूशलेम  
 १३ का फिर अपना ठहराएगा । हे सब प्राणियों यहोवा  
 के साम्हने चुपके रहो क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र  
 निवासस्थान से निकला है ॥

**३. फिर** उस ने मुझे यहोशू महायाजक  
 के यहोवा के दूत के साम्हने  
 खड़ा दिखाया और शैतान उस की दहिनी ओर उस  
 २ का विरोध करने का खड़ा था । तब यहोवा ने शैतान  
 से कहा हे शैतान यहोवा तुझ को बुझके यहोवा जो  
 यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे बुझके क्या यह  
 ३ आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है । उस समय  
 यहोशू तो दूत के साम्हने कुचैले वस्त्र पहिने हुए खड़ा  
 ४ था । सो तू ने उन से जो साम्हने खड़े थे कहा इस के

- (१) मूल में बिना शहरपनाह के गांव होकर बसेगा ।  
 (२) मूल में तेज हूँगा । (३) मूल में बाबेल की बेटी ।  
 (४) मूल में हिलाऊगी ।  
 (५) मूल में सियोन की बेटी ।

ये कुचैले वस्त्र उतारो फिर उस ने उस से कहा देख मैं ने  
 तेरा अधर्म दूर किया है और तुझे सुन्दर सुन्दर वस्त्र  
 पहिना देता हूँ । तब मैं ने कहा इस के सिर पर एक  
 ५ शुद्ध पगड़ी रक्खी जाए सो उन्होंने ने उस के सिर पर  
 याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रक्खी और उस को वस्त्र  
 पहिनाये उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा ।  
 तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिंताकर कहा कि  
 ६ सेनाओं का यहोवा तुझ से यों कहता है कि यदि तू  
 ७ मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैं ने तुझे सौंप दिया  
 है उस की रक्षा करे तो तू मेरे भवन में का न्यायी और  
 मेरे आंगनों का रक्षक होगा और मैं तुम को इन के बीच  
 में जो पास खड़े हैं आने जाने दूँगा । हे यहोशू  
 ८ महायाजक तू सुन ले और तेरे भाईबधु जो तेरे साम्हने  
 बैठा करने हैं वे भी सुनें क्योंकि वे अद्भुत चिह्न से  
 मनुष्य हैं सुनो कि मैं पल्लव नाम अपने दास को प्रगट  
 करूँगा । उस पत्थर को देख जिसे मैं ने यहोशू के आगे  
 ९ रक्खा है उस एक ही पत्थर के ऊपर सात आंखें बनी हैं  
 सो सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि सुन मैं उस  
 पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को  
 एक ही दिन में दूर कर दूँगा । उसी दिन तुम अपने  
 १० अपने भाईबन्धुओं को दाखलता और अजीर के वृत्त के  
 ११ नीचे आने को बुलाओगे सेनाओं के यहोवा की यही  
 वाणी है ।

**४. फिर** जो दूत मुझ से बातें करता था  
 उस ने फिर आकर मुझे ऐसा  
 जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए । और उस ने  
 २ मुझ से पूछा कि तुझे क्या देख पड़ता है मैं ने कहा  
 मैं ने देखा कि एक दीपक है जो संपूर्ण सोने की है और  
 उस का कटोरा उस की चोटी पर है और इस पर उस के  
 सातों दीपक भी हैं और चोटी पर के इन दीपकों के लिये  
 सात सात नलियाँ हैं । और दीपक के पास जलपाई के  
 ३ दो वृत्त हैं एक तो उस कटोरे की दहिनी ओर दूसरा  
 उस की बाईं ओर । तब मैं ने उस दूत से जो मुझ से  
 ४ बातें करता था पूछा कि हे मेरे प्रभु ये क्या हैं । जो  
 दूत मुझ से बातें करता था उस ने मुझ को उत्तर दिया  
 कि क्या तू नहीं जानता कि ये क्या हैं मैं ने कहा हे मेरे  
 प्रभु मैं नहीं जानता । तब उस ने मुझ से उत्तर देकर  
 ६ कहा जरुब्बाबेल के लिये यहोवा का यह वचन है कि न  
 तो बल से और न शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा  
 होगा मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है । हे बड़े  
 ७ पहाड़ तू क्या है जरुब्बाबेल के साम्हने तू मैदान हो  
 जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए

- ८ लाएगा कि उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह । फिर यहीवा  
 ९ का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, जरुब्यावेल ने  
 अपने हाथों से इस भवन की नेत्र डाली है और वही  
 अपने हाथों से उस को तैयार भी करेंगे और तू जानेगा  
 कि सेनाओं के यहीवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ।  
 १० क्योंकि किस ने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है  
 यहीवा अपनी इन बातों आंखों से सारी पृथिवी पर दृष्टि  
 करके साहुल को जरुब्यावेल के हाथ में देखेगा और  
 ११ आनन्दित होगा । तब मैं ने उस से फिर पूछा ये दो  
 जलपाई के वृक्ष जो दीवट की दहिनी बाईं ओर हैं ये क्या  
 १२ हैं । फिर मैं ने दूसरी बार उस से पूछा कि जलपाई की  
 दोनों डालियां जो सेने की दोनों नलियों के द्वारा  
 अपने पर से सेनाहला तब उएडेलती हैं सो क्या हैं ।  
 १३ उस ने मुझ से कहा क्या तू नहीं जानता कि ये क्या  
 १४ हैं मैं ने कहा हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता । तब उस ने  
 कहा इन का अर्थ टटके तेल से भरे हुए वे दो पुरुष  
 हैं जो समस्त पृथिवी के प्रभु के पास हाजिर  
 रहते हैं ॥

**५. फिर मैं ने जो आंखें उठाई तो क्या**

- देखा कि एक लिखा हुआ पत्र  
 २ उड़ रहा है । दूत ने मुझ से पूछा कि तुझे क्या देख  
 पड़ता है मैं ने कहा मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता  
 देख पड़ता है जिस की लम्बाई बीस हाथ और चौड़ाई  
 ३ दस हाथ की है । तब उस ने मुझ से कहा यह वह  
 साप है जो इस सारे देश पर पड़ा चाहता है<sup>१</sup> अर्थात्  
 जो कोई चोरी करता है सो उस की एक ओर लिखे  
 हुए के अनुसार भैल की नाई निकाल दिया जाएगा  
 और जो कोई किरिया खाता है सो उस की दूसरी ओर  
 ४ लिखे हुए के अनुसार भैल की नाई निकाल दिया  
 जाएगा । सेनाओं के यहीवा की यह वाणी है कि  
 मैं उस को ऐसा चलाऊंगा<sup>२</sup> कि वह चार के घर में  
 और मेरे नाम की भूठी किरिया खानेहारे के घर में  
 घुसकर ठहरेगा और उस को लकड़ी और पत्थरों समेत  
 नाश करेगा ॥  
 ५ तब जो दूत मुझ से बातें करता था उस ने  
 बाहर जाकर मुझसे कहा आंखें उठाकर देख कि वह  
 ६ क्या वस्तु निकल जा रही है । मैं ने पूछा कि वह क्या  
 है । उस ने कहा वह वस्तु जो निकल जा रही है सो  
 एक एपा का नपुत्रा है । उस ने फिर कहा सारे देश में

लोगों का यही रूप है । फिर मैं ने क्या देखा कि ७  
 किककार भर शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा है  
 और यह एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है ।  
 और दूत ने कहा इस का अर्थ दुष्टता है और उस ने ८  
 उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के  
 उस बटखर के लेकर उस से एपा का मुंह टांप दिया ।  
 तब मैं ने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि दो स्त्रियां ९  
 चली आती हैं जिन के पंख पवन से फैले हुए हैं और  
 उन के पंख लगलगा के से हैं और वे एपा को आकाश  
 और पृथिवी के बीच में उड़ाने लिये जा रही हैं ।  
 तब मैं ने उस दूत से जो मुझ से बातें करता था पूछा १०  
 कि वे एपा को कहां लिये जाती हैं । उस ने कहा ११  
 शिनार देश में लिये जाती हैं कि वहां उस के लिये एक  
 भवन बनाएं और जत्र वत्र तैयार किया जाए तब वह  
 १२ वहां अपने ही पाये पर खड़ा किया जाएगा ॥

**६. मैं ने जो फिर आंखें उठाई तो क्या**

देखा कि दो पहाड़ों के बीच से  
 चार रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं ।  
 पहिले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, २  
 और तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकवरे और ३  
 बदामी घोड़े हैं । तब मैं ने उस दूत से जो मुझ ४  
 से बातें करता था पूछा कि हे मेरे प्रभु ये क्या हैं । दूत ५  
 ने मुझ से कहा ये तो आकाश के चारों वायु हैं  
 जो सारी पृथिवी के प्रभु के पास हाजिर रहने पर अब  
 निकले आये हैं । तब रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर ६  
 देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उन के पीछे पीछे  
 चले जाते हैं और चितकवरे घोड़े दक्खिन देश की ओर  
 जाते हैं । और बदामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि ७  
 जाकर पृथिवी पर फेरा करें तब दूत ने कहा जाकर  
 पृथिवी पर फेरा करो सो वे पृथिवी पर फेरा करने लगे ।  
 तब उस ने मुझ से पुकरवाकर कहा देख वे जो उत्तर ८  
 के देश की ओर जाते हैं उन्होंने ने उत्तर के देश में मेरा  
 जी ठंडा किया है ॥

फिर यहीवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा ९  
 कि, बंधुआई के लोगों में से अर्थात् हेल्द और १०  
 तोविथ्याह और यदायाह से कुछ ले और उसी दिन तू  
 सपन्याह के पुत्र योशियाह के घर जिस में वे बाबेल  
 से आकर उतर हैं उस में जाकर, उन के हाथ से सोना ११  
 चांदा ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहीवादाक के पुत्र  
 यहीशू महायाजक के सिर पर रखना । और उस से १२

(१) मूल में टटके तेल के पुत्र । (२) मूल में देश पर निकलता है ।

(३) मूल में मैं उस को चलाऊंगा ।

(४) वा आत्मा ।

यह कहना कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि उस पुरुष को देख जिस का नाम पल्लव है वह अपने ही स्थान में मानों उगकर यहोवा के मन्दिर को बना-  
 १३ एगा । वही यहोवा के मन्दिर को बनाएगा और वही महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा और सिंहासन पर विराजता हुआ याजक भी बनेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मान  
 १४ टहरेगी । और वे मुकुट हेलेम तोविय्याह यदायाह और सपन्याह के पुत्र हन को मिलें कि वे यहोवा के मन्दिर में स्मरण के लिये बने रहें । फिर दूर दूर के  
 १५ लोग आ आकर यहोवा के मन्दिर बनाने करेंगे और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है । यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की मानो तो यह बात हांगी ॥

### ७. फिर दारा राजा के चौथे वरस के किसलेव नाम नौवें महीने के

चौथे दिन को यहोवा का वचन जकर्याह के पास  
 २ पहुंचा । वेतलवासियों ने जनों समेत शरसेर और रेगम्मलेक को इमलिये भेजा था कि यहोवा से विनती करें, और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और नवियों से भी यह पूछें कि क्या हमें उपवास करके रोना चाहिये जैसे कि पांचवें महीने में कितने वरसों  
 ४ से हम करते आये हैं । तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन भरे पास पहुंचा कि, सब साधारण लोगों से और याजकों से कह कि जब तुम इन सत्तर वरसों के बीच पांचवें और सातवें महीनों में उपवास और विलास करते थे तब क्या तुम सचमुच भरे ही लिये उपवास  
 ६ करते थे । और जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम आप ही खानेहारे और तुम आप ही पीनेहारे नहीं हो ।  
 ७ क्या यह बड़ी वचन नहीं है जो यहोवा अगले नवियों के द्वारा उस समय पुकारकर कहता रहा जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत बर्सा और चैन से थी और दक्खिन देश और नाचे का देश भी बसा हुआ था ॥

८ फिर यहोवा का यह वचन जकर्याह के पास  
 ९ पहुंचा कि, सेनाओं के यहोवा ने यों कहा है कि खगाई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और  
 १० दया से काम करना । और न तो विषया पर अंधे

करना न बपमूए न परदेशी न दीन जन पर और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना । पर उन्हीं ने चित्त लगाना न चाहा और हठ  
 ११ किया और अपने कानों को मून्द् लिया कि न सुन सकें । वरन उन्हीं ने अपने हृदय को बज्र सा इसालिये बना  
 १२ लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों का न मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले नावय से कहला भेजा था इस कारण सेनाओं के यहोवा को और से उन पर बड़ा क्रोध  
 १३ भड़का । और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसा भरे पुकारने से उन्हीं ने नहीं सुना वैसे ही उन के पुकारने से मैं भी न सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन  
 १४ सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आधी से तित्तर तित्तर कर दूंगा और उन का देश उन के पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उस में किसी का आना जाना न हांगा । इसी प्रकार से उन्हीं ने मनाहर देश को उजाड़ कर दिया ॥

### ८. फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन पहुंचा कि, सेनाओं का यहोवा

यों कहता है कि सिथ्यान के लिये मुझे बड़ी जलन हुई वरन बहुत ही जलजलाहट मुझे उपजी है । यहोवा  
 ३ या कहता है कि मैं सिथ्यान में लाट आया हूँ और यरूशलेम के बीच बास किये रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्यत  
 ४ पांयव पर्यत कहाएगा । सेनाओं का यहोवा या कहता है कि यरूशलेम के चारों म फिर बूढ़े और बूढ़िया बहुत दिनों हान के कारण अपने अपने हाथ में लाटा लिय हुए बैठा परेगी । और नगर के चोक खलनेवाले लड़कों और  
 ५ लड़कियों से भरे रहेंगे । सेनाओं का यहोवा या कहता है कि उन दिनों में चाह यह बात इन वचन हुआ के लेखे  
 ६ अनाथों टहर पर क्या यह भरे लेखे भी अनेवाला टहरेगी सेनाओं के यहोवा की यहा वाणी है । सेनाओं का यहोवा  
 ७ या कहता है कि सुना में अनाथ प्रजा का उद्धार करके उसे पूरव से और पांच्यम से ले आऊंगा । और मैं उन्हें ले  
 ८ आकर यरूशलेम के बीच बनाऊंगा और वे मेरी प्रजा टहरेंगे और मैं उन का परमेश्वर टहरूंगा यह तो सच्चाई और धर्म के साथ हांगा । सेनाओं का यहोवा यों कहता  
 ९ है कि तुम जो इन दिनों में ये वचन उन नवियों के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन के नेव डालने के समय अर्थात् मन्दिर के बनने के समय में  
 १० थे । उन दिनों के पाहले न तो मनुष्य की मजूरी

मिलती थी और न पशु का भाड़ा बरन सतानेहारों के कारण न तो आनेहारों को चैन मिलता था और न जानेहारों का क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर  
 ११ चढ़ाई कराता था । पर अब मैं इस प्रजा के बचे हुएों से ऐसा बर्ताव न करूंगा जैसा कि अगले दिनों में  
 १२ करता था सेनाओं के यहावा का यही वाणी है । सा शांत के समय की उपज अर्थात् दाखलता फला करंगी पृथिवी अपनी उपज उपजाया करंगी और आकाश से आस गिरा करंगी क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे  
 १३ हुएों को इन सब का अधिकारी कर दूंगा । और ह यहुदा के घराने और इस्राएल के घराने जिस प्रकार तुम अन्यजातियों के बीच साप के कारण थे उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशप के कारण हागे सो तुम मत डरा और न तुम्हारे हाथ ढाल पड़ने  
 १४ पाएँ । क्योंकि सेनाओं का यहावा यों कहता है कि जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रास दिलात थे तब मैं न उन का हानि करने का ठाना था और फिर न पकृताया,  
 १५ उसी प्रकार मैं न इन दिनों में यरूशलेम का और यहुदा के घराने का भलाई करने का ठाना हूँ सो तुम  
 १६ मत डरा । जो जो काम तुम्हें करना चाहिये सो ये हैं अर्थात् एक दूसरे के साथ सत्य बाला करना अपना कचहारियों<sup>(१)</sup> में सच्चाई का और मलामलाप का नाति  
 १७ का न्याय करना । और अपने अपने मन में एक दूसरे का हानि की कल्पना न करना और भूयों किराया में प्राति न रखना क्योंकि इन सब कामों में धन करता हूँ यहावा का यही वाणी ह ॥  
 १८ फिर सेनाओं का यहावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा  
 १९ कि, सेनाओं का यहावा यों कहता है कि चाथे और पाचवे और सातवे और दसवे महाने में जो जो उपवास के दिन हात हूँ व यहुदा के घराने के लिये हर्ष और आनन्द और उत्सव के पर्वों के दिन ही जाएंगे सो तुम  
 २० सच्चाई और मलामलाप में प्राति रखना । सेनाओं का यहावा यों कहता है कि ऐसा समय आनेहारा है कि देश देश के लोग और बहुत नगर के रहनेहारें आएंगे ।  
 २१ और एक नगर के रहनेहार दूसरे नगर के रहनेहारों के पास जाकर कहेंगे कि यहावा से बिनती करने और सेनाओं के यहावा को दूढ़ने के लिये चला मैं भी  
 २२ चलूंगा । बरन बहुत से देशों के और सामथों जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहावा को दूढ़ने और  
 २३ यहावा से बिनती करने के लिये आएंगे । सेनाओं का यहावा यों कहता है कि उन दिनों में भाति भाति की  
 (१) भूल में फाटकी ।

भाषा बोलनेहारी सब जातियों में से दस मनुष्य एक यहुदी पुरुष के वख की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे क्योंकि हम ने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है ॥

## ९. हद्राक देश के विषय यहावा का कहा

हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा<sup>(२)</sup> क्योंकि यहावा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी है, और हमारा<sup>(३)</sup> की ओर जो दमिश्क के निकट है और सौर और सीदोन की ओर ये तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, और सौर ने अपने लिये एक गढ़ बनाया और चान्दी धूलि के किरणों का नाई और चोखा सेना सड़कों की कीच के समान बटोर रखवा है । सुनो प्रभु उस को औरों के अधिकार<sup>(४)</sup> में कर देगा और उस के धुस को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कौर हो जाएगा । यह देखकर अश्कलोन डरेगा और अजा को पीड़ें उठेंगी<sup>(५)</sup> और एकोन भी डरेगा क्योंकि उस की आशा टूटेगी और अजा में फिर राजा न रहेगा और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी । और अश्दाद में बिजन्म लोग बसंग<sup>(६)</sup> सो इसी प्रकार में पलिशितियों के गर्व को तोड़ूंगा । और मैं उस के मुंह में से अहर का लोहू और घिनौनी<sup>(७)</sup> वस्तुएं<sup>(८)</sup> निकाल दूंगा तब उन में से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर<sup>(९)</sup> का जन होगा और यहुदा में आधिपात सा होगा और एकोन के लोग यूसुसियों के समान बनेंगे । और मैं उस सेना के कारण जा पास से हाकर<sup>(१०)</sup> जाएगी और फिर लोट आएगी अपने भवन के आसपास छावनी किये रहेगा और कोई परिश्रम करानेहारा फिर उन के पास से हाकर न जाएगा मैं तो ये बातें अब भी देखता हूँ ॥

ह सच्च्यान<sup>(१)</sup> बहुत ही मगन हा ह यरूशलेम<sup>(२)</sup> जयजयकार कर क्योंकि तारा राजा तरें पास आएगा वह धर्मा और उद्धार पाया हुआ है वह दीन है और गदह पर बरन गदही के बच्च पर चढ़ा हुआ आएगा । और<sup>(३)</sup> मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घाड़ नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह अन्यजातियां से शान्ति का बातें कहगा और वह समुद्र से समुद्र लों और महानद से पृथिवी के दूर दूर देशों लों प्रभुता करगा । और तू भी धन तरें वाचा के लोहू के<sup>(४)</sup>

(२) मूल में दमिश्क उस का विश्रामस्थान ।

(३) मूल में और उस के दान्ता के बीच से उस को घिनौनी वस्तुएं ।

(४) मूल में सच्च्यान की बटा । (५) मूल में यरूशलेम की बटा ।

कारण मैं ने तेरे बन्दियों को बिना जल के गड़हे में से  
 १२ उबार लिया है । हे आशा धरे हुए बन्दियों गड़ की  
 और फिरों आज ही मैं बताता हूँ कि मैं तुम को बदले  
 १३ में दूना सुख दूंगा । क्योंकि मैं ने धनुष की नाई यहुदा को  
 चढ़ाकर उस पर तीर की नाई एप्रैम को सन्धाना और  
 सियथोन के निवासियों को यूनान के निवासियों  
 के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर  
 १४ दूंगा । तब यहोवा उन के ऊपर दिखाई दगा और उस  
 का तीर बिजली की नाई छूटेगा और प्रभु यहोवा  
 नरसिंगा फूंककर दक्खिन दश की सी आधी में होके  
 १५ चलेगा । सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और  
 वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उन के गोफन के  
 पत्थरों पर पांव धरेंगे और वे पीकर ऐसा कोलाहल  
 करेंगे जैसा लोग दाखमधु पांकर करते हैं और वे  
 कटोरे की नाई वा वेदी के कोने की नाई भरे जाएंगे ।  
 १६ और उस समय उन का परमेश्वर यहोवा उन को अपनी  
 प्रजारूपी भेड़ बकरियां जानकर उन का उद्धार करेगा  
 और वे मुकुटमणि ठहरके उस की भूमि से बहुत ऊंचे  
 १७ पर चमकते रहेंगे । उस का क्या ही कुशल और क्या  
 ही शोभा होगी उस के जवान लोग अन्न खाकर और  
 कुमारियां नया दाखमधु पीकर हृष्टपुष्ट हो जाएगी ॥

१०. यहोवा से बरसात के अन्त में

वर्षा मांगो अर्थात् यहोवा  
 से जो बिजली चमकाता है और वह उन को वर्षा देता  
 २ और एक एक के खेत में हरियाली उपजाता है । क्योंकि  
 गृहदेवता अनर्थ बात कहते और भावी करनेहार भूटा  
 दर्शन देखते और भूठे स्वप्न सुनाते और  
 व्यर्थ शांति देते हैं इस कारण लोग भेड़ बकरियों  
 की नाई भटक गये और चरवाहे न होने के  
 कारण दुर्दशा में पड़े ॥

३ मेरा कोप चरवाहां पर भड़का है और मैं उन्हें  
 और बकरों को दण्ड दूंगा क्योंकि सेनाओं का यहोवा  
 अपने भुण्ड अर्थात् यहुदा के घराने का हाल देखने को  
 आएगा और लड़ाई में उन को अपना हृष्टपुष्ट घोड़ा सा  
 ४ बनाएगा । सो उसी में से कोने का पत्थर उसी में से  
 खूटी उसी में से युद्ध का धनुष उसी में से प्रधान सब  
 ५ के सब प्रगट होंगे । और वे ऐसे वीरों के समान होंगे  
 जो लड़ाई में अपने बैरियों का सड़कों की कीच की नाई  
 रौंदते हों और वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उन के संग  
 रहेगा इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की  
 ६ आशा टूटेगी । और मैं यहुदा के घराने को पराक्रमी  
 करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा और

मुझे जो उन पर दया आई इस कारण उन्हें लौटा  
 लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे कि  
 मानो मैं ने उन को मन से नहीं उतारा क्योंकि उन का  
 परमेश्वर यहोवा हूँ इसलिये उन की सुन लूंगा ।  
 और एप्रैमी लोग वीर के समान होंगे और उन का ७  
 मन ऐसा आनन्दित होगा जैसे दाखमधु से होता है  
 और यह देखकर उन के लड़के बाले आनन्द करेंगे  
 और उन का मन यहोवा के कारण मगन होगा । मैं ८  
 सीटी बजाकर उन को इकट्ठा करूंगा क्योंकि मैं उन का  
 छुड़ानेहारा हूँ और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे बढ़े थे । और मैं ९  
 उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच छितराऊंगा और  
 वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने  
 बालकों समेत जी जाएंगे तब लौट आएंगे । मैं उन्हें मिस्र १०  
 देश से लौटा लाऊंगा और अशूर से इकट्ठा करूंगा  
 और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना  
 बढ़ाऊंगा कि वहां उन की समाई न होगी । और यह ११  
 उस कष्टदाई समुद्र में से होकर उस की लहरें दबाता  
 हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहिरा जल  
 सूख जाएगा और अशूर का घमण्ड तोड़ा जाएगा  
 और मिस्र का राजदण्ड जाता रहेगा । और मैं उन्हें १२  
 यहोवा के द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उस के नाम  
 से चलें फिरेंगे यहोवा की यही वाणी है ॥

११. हे लबानोन आग के रस्ता दे कि

वह आकर तेरे देवदारों को  
 भस्म करने पाए । हे सनौबरो हाय हाय करो क्योंकि २  
 देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नाश हो गये  
 हैं हे वाशान के बाज वृक्षो हाय हाय करो क्योंकि  
 आगम्य वन काटा गया है । चरवाहों के हाहाकार का ३  
 शब्द हो रहा है क्योंकि उन का विभव नाश हो गया  
 है जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है क्योंकि  
 यर्दन तीर का घना वन नाश किया गया है ॥

मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी कि घात ४  
 होनेहारी भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा । उन के ५  
 मोल लेनेहारे उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी  
 नहीं जानते और उन के बेचनेहारे कहते हैं कि यहोवा  
 धन्य है हम धनी हो गये हैं और उन के चरवाहे उन  
 पर कुछ दया नहीं करते । सो यहोवा की यह ६  
 वाणी है कि मैं इस देश के रहनेहारों पर फिर  
 दया न करूंगा बरन मैं मनुष्यों को एक दूसरे के

(१) मूल में भी दूंगा । (२) मूल में वीर ।

(३) मूल में अपने किवाड़ खोल ।

(४) मूल में गव ।

हाथ में और उन के राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा और वे इस देश को नाश करेंगे और मैं इस के रहने-  
 ७ हारों को उन के वश से न छुड़ाऊंगा । सो मैं बात होनेहारी भेड़ बकरियों को और विशेष करके उन में से जो गरीब थीं उन को चराने लगा और मैं ने दो लाठियां लीं एक का नाम मैं ने मनाहरता रक्खा और दूसरी का नाम बन्धन इन दो लिये हुए मैं उन भेड़ बकरियों को  
 ८ चराने लगा । और मैं ने उन के तीनों चरवाहों को एक मर्दाने में विलाय दिया और मैं उन के कारण अधीर  
 ९ था और वे मुझ से घिन करती थीं । तब मैं ने उन से कहा मैं तुम को न चराऊंगा तुम में से जो मरे सो मरे और जो विलाए सो विलाए और जो बची रहें सो एक  
 १० दूसरे का मांस खाएं । और मैं ने अपनी वह लाठी जिस का नाम मनाहरता था तोड़ डाली कि जो वाचा मैं ने  
 ११ सब अन्यजातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं । सो वह उसी दिन तोड़ी गई और इस से गरीब भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती रहीं उन्होंने जान लिया कि यह  
 १२ यहोवा का वचन है । तब मैं ने उन से कहा यदि तुम को अच्छा लगे तो मेरी मजूरा दो और नहीं तो मत दो, सो उन्होंने मेरी मजूरी में चान्दी के तीस टुकड़े  
 १३ तौल दिये । तब यहोवा ने मुझ से कहा इन्हें कुम्हार के आंग फेंक दे अर्थात् यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है सो मैं ने चान्दी के उन तीस टुकड़ों का लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आंग फेंक  
 १४ दिया । और मैं ने अपनी दूसरी लाठी जिस का नाम बन्धन था इसलिये तोड़ डाली कि मैं उस भाई भाई के से नाते को जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है तोड़ूं ॥  
 १५ तब यहोवा ने मुझ से कहा अब तू मूढ़ चरवाह  
 १६ के हथियार ले ले । क्योंकि मैं इस देश में ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो न खोई हुई को ढूँढ़ेगा न तित्तर वित्तर को इकट्ठी करेगा न घायलों को चर्झी करेगा न जो भली चर्झी है उन का पालन पोषण करेगा, बरन मोठयों का मांस खाएगा और उन के सुरों को फाड़  
 १७ डालेगा । हाथ उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों का छाड़ जाता है उस की बांह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगगी तब उस की बांह सूख ही जाएगी और उस की दाहिनी आंख बैठ ही जाएगी ॥

१२. इस्राएल के विषय यहोवा का कहा हुआ भारी वचन यहोवा जो आकाश का ताननेहारा और पृथिवी का नेत्र डालनेहारा और मनुष्य के आत्मा का रचनेहारा है

उस की यह वाणी है कि, सुनो मैं यरूशलेम को २ चारों ओर की सब जातियों के लिये लड़खड़ा देने के मद का कटोरा टहरा दूंगा और जब यरूशलेम धर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा ऐसी ही होगी । और ३ उस समय पृथिवी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी तब मैं उस को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि उन सभों में से जितने उस को उठाने लगे सो बहुत ही घायल होंगे । यहोवा की यह वाणी है ४ कि उस समय मैं हर एक घोंड़े को घबरा दूंगा और उस के सवार को बौरहा करूंगा और मैं यहूदा के घराने पर कृपाटाए रक्खुंगा पर अन्यजातियों के सब घोंड़ों को अंधा कर डालूंगा । तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे ५ कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहावा की सहायता से मरे सहायक बनेंगे । उस समय ६ मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगठी वा पूले में जलती हुई मशाल होती है अर्थात् वे दाहिने बायें पर चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे और यरूशलेम जहां अब बसी है वही यरूशलेम ही में बसी रहेगी । और ७ यहोवा पहिले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने विभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारें । उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा और उस समय उन में से जो टांकर खानेहारा हो सो दाऊद के समान होगा और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा अर्थात् यहोवा के उस दूत के समान जो उन के आंगे आंगे चलता था । और उस समय मैं उन सब जातियों ९ को जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे नाश करने का यत्न करूंगा । और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के १० निवासियों पर अपना अनुग्रह करनेहारा<sup>१</sup> और प्रार्थना सिखानेहारा<sup>२</sup> आत्मा उएडलूंगा सो वे मुझे अर्थात् जिसे उन्होंने बंधा उसे ताकेंगे और उस के लिये ऐसे रोएं पीटेंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिये रोते पीटते हैं और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलोटे पर करते हैं । उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा ११ मगिहोन की तराई में के हदद्रिमोन में हुआ था । बरन सारे देश में विलाप एक एक कुल में अलग अलग १२ होगा अर्थात् दाऊद के घराने का कुल अलग और उन की स्त्रियां अलग नातान के घराने का कुल अलग और उन की स्त्रियां अलग । लेवी के घराने का कुल अलग १३

(१) मूल में का । (२) मूल में ऐसे कहे होंगे ।

और उन की स्त्रियां अलग शिमीयो का कुल अलग और  
१४ उन की स्त्रियां अलग, निदान जितने कुल रह गये हों  
एक एक कुल अलग और उन की स्त्रियां अलग ॥

### १३. उसी समय दाऊद के घराने और

- यरूशलेम के निवासियों के  
लिये पाप और मलिनता धोने के निमित्त यहना हुआ  
२ सोता होगा । और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है  
कि उस समय मैं इस देश में से मूरतों के नाम मिटा  
डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेंगी और मैं नवियों  
और अशुद्ध आत्मा के इस देश में से निकाल दूंगा ।  
३ और यदि कोई फिर नव्वत करे तो उस के माता पिता  
जिन से वह उत्पन्न हुआ उस से कहेंगे कि तू जीव न  
बचेगा क्योंकि तू ने यहोवा के नाम से झूठ कहा है सो  
जब वह नव्वत करे तब उस के माता पिता जिन से  
४ वह उत्पन्न हुआ उस को वेध डालेंगे । और उस समय  
नयी लोग नव्वत करते हुए अपने अपने दर्शन में  
लज्जित होंगे और न वे धोखा देने के लिये कंवल का  
५ वस्त्र पहिनेंगे । बरन एक एक कहेगा कि मैं नयी नहीं  
किसान हूँ और लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूँ ।  
६ तब उस से यह पूछा जाएगा कि तेरी ल्हाती में ये घाव  
कैसे हुए ? और वह कहेगा ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों  
के घर में मुझे लगे हैं ॥  
७ सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि हे तल-  
वार मेरे उहराये हुए चरवाहे के विरुद्ध अर्थात् जो परुप  
मेरा सजाति है उस के विरुद्ध चल तू उस चरवाहे को  
काट तब भेड़ बकरियां तिचर बिचर हों जाएंगी पर बच्चों  
८ पर मैं अपने हाथ फेरूंगा । यहोवा की यह भी वाणी है  
कि इस देश के सारे निवासियों की दो तिहाई मार  
डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उस में बनी  
९ रहेगी । इस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल  
करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है और ऐसा  
जांचूंगा जैसा सेना जांचा जाता है सो वे मुझ से  
प्रार्थना किया करेंगे और मैं उन की सुनूंगा मैं तो उन  
के विषय कहूंगा कि ये मेरी प्रजा हैं और वे मेरे विषय  
कहेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है ॥

### १४. सुनो यहोवा का ऐसा एक दिन

- अनेहारा है कि तेरा धन  
२ लुटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा । क्योंकि मैं  
सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिये इकट्ठा  
करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे

(१) मूल में तेरे हाथों के बीच ये क्या धाव है ।

- जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी और नगर के आधे  
लोग बन्धुघाई में जाएंगे पर प्रजा के शेष लोग नगर  
ही में रहने पाएंगे । तब यहोवा निकलकर उन जातियों ३  
से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था ।  
और उस समय वह जलगाई के पर्वत पर जो पूरव और ४  
यरूशलेम के साम्हने है पांव धरेगा तब जलपाई का  
पर्वत पूरव से लेकर पच्छिम लों बीचों बीच से पटकर  
बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा सो आधा पर्वत उत्तर की  
और और आधा दक्खिन की ओर हट जाएगा । तब ५  
तुम मेरे बनाये हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे  
क्योंकि वह खड्ड आसल लों पहुंचेगा बरन तुम ऐसे  
भागोगे जैसे उस भुईडोल के डर से भागे थे जो यहूदा  
के राजा उजिय्याह के दिनों में हुआ था । तब मेरा  
परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग तेरे  
साथ होंगे । उस समय कुछ उजियाला न रहेगा क्योंकि ६  
ज्योतिभाण मिमट जाएंगे । और वह एक ही दिन होगा ७  
जिसे यहोवा ही जानता है न तो दिन होगा और न  
रात होगी पर सांभ को उजियाला होगा । और उस ८  
समय यरूशलेम से यहता हुआ जल फूट निकलेगा  
उस की एक शाखा पूरव के ताल और दूसरी पच्छिम  
के सदर की ओर बहेगी और धूप के दिनों में और  
जाड़े के दिनों में बराबर बरनी रहेगी । तब यह वा सारी ९  
पृथिवी का राजा होगा और उस समय यहोवा एक ही  
और उस का नाम एक ही माना जाएगा । मेरा से लेकर १०  
यरूशलेम की दक्खिन ओर के रिम्मान लों सारी भूमि  
अराधा के समान हो जाएगी और वह ऊर्चा होकर  
बिन्यामीन के फाटक से लेके पहिले फाटक के स्थान लों  
और केनेवाले फाटक लों और हगनेल के गुम्भट से  
लेकर राजा के दावरसकुवडों लों अपने स्थान में बसेगी ।  
और लोग उस में बसंगे और फिर सत्यानाश का क्षाप ११  
न होगा और यरूशलेम वेकटके बसी रहेगी । और १२  
जितनी जातियो ने यरूशलेम से युद्ध किया हो उन  
सभों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उन  
का मांस सड़ जाएगा और उन की आंखें अपने गालकों  
में सड़ जाएंगी और उन की जीभ उन के मुंह में सड़  
जाएगी । और उस समय यहोवा की ओर से उन में १३  
बड़ी धवराहट पैठेगा और वे एक दूसरे के हाथ को  
पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे ।  
और यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सेना चान्दी १४  
वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपात्त  
उस में बटरी जाएगी । और घाड़े खबर ऊट और गदहे १५  
बरन जितने पशु उन की छावनियों में होंगे सो भी ऐसी



१६ मार से मारे जाएंगे । और यरूशलेम पर चढ़नेहारी सब जातियों में से जितने लोग पचे रहेंगे सो बरस बरस राजा को अर्थात् सेनाओं के यहोवा को दरडवत् करने और भोंपड़ियों का पर्व मानने के लिये यरूशलेम को १७ जाया करेंगे । और पृथिवी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात् सेनाओं के यहोवा को दरडवत् करने के लिये न जाए उन के यहां वर्षा न होगी । १८ और यदि मिस्र का कुल वहां न आए तो क्या उन पर वह मरौ न पड़ेगी जिस से यहोवा उन जातियों को मारेगा जो भोंपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएं ।

यह मिस्र का पाप और उन सब जातियों का पाप १९ ठहरेंगा जो भोंपड़ियों का पर्व मानने के लिये न जाएं । उस समय वेदों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा २० कि यहोवा के लिये पवित्र और यहोवा के भवन की दृष्टियां उन कटोरे के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के साम्हने रहन हैं । बरन यरूशलेम में और यहूदा देश २१ में सब हंडियों सेनाओं के यहोवा के लिये पवित्र ठहरेंगी और सब मेलबलि करनेवारे आ आकर उन हंडियों में मांस सिभाया करेंगे और उस समय सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई कनानी न पाया जाएगा ॥

## मलाकी ।

१. मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ॥

- २ यहोवा यह कहता है कि मैं ने तुम से प्रेम किया है पर तुम पूछते हो कि तू ने किस बात में हम से प्रेम किया है यहोवा की यह वाणी है कि क्या एसाव याकूब का भाई न था तौ भी मैं ने याकूब से प्रेम किया पर एसाव को अप्रिय जानकर उस के पहाड़ों को उजाड़ डाला और उस के भाग के जंगल के गीदड़ों का कर दिया है । एदोम तो कहता है कि हमारा देश उजड़ गया है पर हम खंडहरों को फिरकर बसाएंगे सो सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि वे तो बनाएंगे पर मैं टा दंगा और उन का नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहा- ५ एंगे जिन पर यहोवा सदा क्रोधित रहेगा । और तुम अपनी आंखों से यह देखकर कहोगे कि यहोवा इस्राएल को छोड़ और जातियों में भी महान ठहरेंगा ॥
- ६ पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करना है सो मैं जो पिता हूं मेरा आदर कहाँ और मैं जो स्वामी हूं मेरा भय मानना कहाँ । सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से जो मेरे नाम का अपमान करने हो यही बात पूछता है पर तुम पूछते हो कि हम न किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है । तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तौभी तुम पूछते हो

कि हम किस बात में तुम्हें अशुद्ध ठहराने हैं इस बात में कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है । फिर जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिये समीप ले आते तो क्या यह बुरा नहीं और जब तुम लंगड़े वा गगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ तो क्या वह तुम से प्रसन्न होगा वा तुम पर अनुग्रह करेगा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

अब ईश्वर से बिनती करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे यह तुम्हारे हाथ से हुआ है क्या तुम समझते हो कि ईश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है । भला होता कि तुम में से कोई मन्दिर के किवाड़ों को बन्द करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग बारने न पाते सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि मैं तुम से कुछ भी सन्तुष्ट नहीं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा । उदयाचल से लेकर अस्ताचल लों अन्यजातियों में तो मेरा नाम बड़ा है और हर कहीं भूप और शुद्ध भेंट मेरा नाम पर चढ़ाई जाती है क्योंकि अन्यजातियों में मेरा नाम बड़ा है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है । पर तुम लोग उस को यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और उस पर से जो भोजनवस्तु मिलती है सो तुच्छ है । फिर तुम कहते हो कि यह कैसे बड़े क्लेश का काम है और सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि तुम ने उस भोजनवस्तु से नाक सिकाड़ी है और

चोरी के और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो फिर क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूँ यहोवा का यही वचन है । जिस छली के मुण्ड में नरपशु हो पर वह मन्नत मानकर प्रभु को बर्जा हुआ पशु चढ़ाए वह स्थापित है, मैं तो बड़ा राजा हूँ और मेरा नाम अन्यजातियों में भययोग्य है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

२. और अब हे याजक यह आज्ञा तुम्हारे लिये है । यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो तो सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं तुम को स्थाप दूँगा और जो वस्तुएं मेरी आशिष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा स्थाप पड़ेगा वरन तुम जो मन नहीं लगाते इस कारण मेरा स्थाप उन पर पड़ चुका है । सुनो मैं तुम्हारे खेतों के बीज को जमने न दूँगा ? और तुम्हारे मुँह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञपशुओं का मल फेंकूँगा ? और उस के संग तुम भी उठा लिये जाओगे । तब तुम जानोगे कि मैं ने तुम को यह आज्ञा इसलिये दिलाई है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है । मेरी जो वाचा उस के साथ बंधी वह जीवन और शांति की है और मैं ने उन्हें उस को इसलिये दिये कि वह भय माने और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यन्त भय खाता था । उस को मेरी सच्ची व्यवस्था कंठ थी और उस के मुँह से कुटिल बात न निकलती थी वह शांति और सीधार्ई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से फेर लेता था । याजक को तो चाहिये कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उस के मुँह से व्यवस्था पूछें क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है । पर तुम लोग धर्म के मार्ग से आप हट गये तुम ने बहुतों को भी व्यवस्था के विषय ठोकर खिलाई है तुम ने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है १ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है । सो मैं ने भी तुम को सब लोगों के साम्हने तुच्छ और नीच कर दिया है क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते वरन व्यवस्था देने में मुँह देखा विचार करते हो ॥
१०. क्या हम सभी का एक ही पिता नहीं क्या एक ही ईश्वर ने हम को नहीं सिरजा हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पितरों की वाचा को तोड़

देते हैं । यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल ११ में और यरूशलेम में धिनीना काम किया गया है कैसे कि यहूदा ने बिराने देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उस का प्रिय है अपवित्र किया है । जो पुरुष ऐसा काम करे उस से सेनाओं का यहोवा उस के घर के रक्त और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ानेहारे को यहूदा के तंबुओं में से नाश करे । फिर तुम ने यह दूसरा काम किया है तुम ने यहोवा की वेदी को रोनेहारों और सांस भरनेहारों को आंसुओं से भिगो दिया है यहां लों कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि नहीं करता और न प्रसन्न होकर उस को तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है तौभी तुम पूछते हो कि क्यों । इस कारण कि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की सांगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ जिस का तू ने विश्वासघात किया है । क्या उस ने एक ही को नहीं बनाया तौभी शेष आत्मा उस के पास था ? और एक ही क्यों इसलिये कि वह परमेश्वर के योग्य सन्तान चाहता था सो तुम अपने आत्मा के विषय चौकस रहे और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे । क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं खोत्याग से घिन करता हूँ और उस से भी जो अपने वस्त्र पर उपद्रव करता है सो तुम अपने आत्मा के विषय चौकस रहो सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है तौभी पूछते हो कि हम ने किस बात में उसे उकता दिया इस में कि तुम कहते हो कि जो कोई बुग करता है सो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है वा यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ रहा ॥

३. सुनो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और वह प्रभु जिसे तुम दूँदते हो अचानक अपने मन्दिर में आएगा अर्थात् वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो सुनो वह आता है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है । पर उस के आने का दिन कौन सह सकेगा और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा क्योंकि वह सेनार की आग और धोनी के साबुन के समान है । और वह रूपे का तावनेहारा और शुद्ध

(१) मूल में मैं तुम्हारे कारण बीज को डुङ्कंगा ।

(२) मूल में फैलाऊंगा ।

(३) वा क्या एक ही पुरुष ने ऐसा किया जिस में आत्मा कुछ भी रहा था ।

करनेहारा बन बैठेगा और लेवीयों को शुद्ध करेगा और उन को सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम में की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहिले दिनों और प्राचीनकाल में भावती थी। और मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनहों और व्यभिचारियों और झूठी किरिया खानेहारों के विरुद्ध और जो मजूर की मजूरी को दवाते और विधवा और बपमूए पर अंधेरे करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते उन सभी के विरुद्ध मैं फुर्ती से साक्षी दूंगा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं यहोवा तो बदला नहीं इसी कारण हे याकूबियो तुम नाश नहीं हुए ॥

७ अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आये हो और उन्हें पालन नहीं करते मेरी और फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरंगा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है पर तुम पूछते हो ८ कि हम किस बात में फिरें। क्या मनुष्य परमेश्वर को भांसे देखे तुम तो मुझ को भांसते हो तौ भी पूछते हो कि हम ने किस बात में तुम्हें भांसा है दशमांश और ९ उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी स्याप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे भांसते हो वरन यह सारी जाति ऐसा करती है। १० सारे दशमांश को भण्डार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजनवस्तु रहे और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिये खोलकर तुम्हारे ऊपर बेपरिमाण आशिष बरसाऊंगा कि नहीं। और मैं तुम्हारे कारण नाश करने-हारे को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और सारी जातियां तुम को धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

१३ यहोवा यह कहता है कि तुम ने मेरे विरुद्ध टिठाई की बातें कही हैं पर तुम पूछते हो कि हम तरे विरुद्ध १४ आपस में क्या बोले हैं। तुम ने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है और हम ने जो उस के सौंपे हुए

कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहिराया पहिने हुए चले हैं इस से क्या लाभ हुआ। और अब हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं क्योंकि दुराचारी तो बन गये हैं वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गये हैं। तब यहोवा का भय माननेहारे आपस में बात करते थे और यहोवा ध्यान धरकर उन की सुनता था और जो यहोवा का भय मानते और उस के नाम का संमान करते थे उन के स्मरण के निमित्त उस के साम्हने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सो सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैं ने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज ठहरेंगे और मैं उन से ऐसी कामलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करनेहारे पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात् जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उस की सेवा नहीं करता उन दोनों का भेद पहिचान सकेगे। क्योंकि सुनो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है तब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आनेहारे दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उन का पता तक न रहेगा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पर तुम्हारे लिये जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा और उस की किरणों के द्वारा से तुम चंगे हो जाओगे और निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदो फाँदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे अर्थात् मेरे उस ठहराये हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात् जो जो विधि और नियम मैं ने सारे इस्राएलियों के लिये उस को होरेब में दिये थे उन को स्मरण रखो। सुनो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहिले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। और वह पितरों के मन को उन के पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उन के पितरों की ओर फेरेगा ऐसा न हो कि मैं आकर पृथिवी को सत्यानाश करूँ ॥

(१) मूल में उन की न जड़ न डालियां छोड़ेगा।

(२) मूल में उस के पंखों में चंगापन।

(४) वा आता पिता।

(१) मूल में तुम।

धर्मपुस्तक का नया नियम

अर्थात्

प्रभु यीशु

का

# सुसमाचार

---

ब्रिटिश एन्ड फारेन बाइबल सोसाइटी

इलाहाबाद

१९४०

**NEW TESTAMENT  
IN HINDI  
1940**

***Reprint***

***8,700 Copies***

# नये धर्म नियम

## की पुस्तकों के नाम

और

उन का सूचोपत्र और पन्नों की संख्या

### नये नियम की पुस्तकें

| पुस्तकों के नाम                                    | अध्याय | पुस्तकों के नाम                               | अध्याय |
|--|--------|---|--------|
| मत्ती रचित सुसमाचार                                | २८     | तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री | ६      |
| मरकुस रचित सुसमाचार                                | १६     | तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री | ४      |
| लूका रचित सुसमाचार                                 | २४     | तितुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री           | ३      |
| यूहन्ना रचित सुसमाचार                              | २१     | फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री         | १      |
| प्रेरितों के कामों का बखान                         | २८     | इब्रानियों के नाम पत्री                       | १३     |
| रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री              | १६     | याकूब की पत्री                                | ५      |
| कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री    | १६     | पतरस की पहिली पत्री                           | ५      |
| कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री    | १३     | पतरस की दूसरी पत्री                           | ३      |
| गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री              | ६      | यूहन्ना की पहिली पत्री                        | ५      |
| इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री             | ६      | यूहन्ना की दूसरी पत्री                        | १      |
| फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री          | ४      | यूहन्ना की तीसरी पत्री                        | १      |
| कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री          | ४      | यहूदा की पत्री                                | १      |
| थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री | ५      | यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य                     | २२     |
| थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री | ३      |   |        |

**सुसमाचार**

# मत्ती रचित सुसमाचार

## १. इब्राहीम के सन्तान दाऊद के सन्तान यीशु मसीह की वंशावली ।

- २ इब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ इसहाक से
- ३ याकूब और याकूब से यहूदा और उस के भाई, यहूदा और तामार से फिरिस और जोरह और फिरिस से
- ४ हिस्लोन और हिस्लोन से राम, और राम से अम्मीनादाब और अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन,
- ५ और सलमोन और राहव से बोअज और बोअज और
- ६ रूत से ओबेद और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ ॥
- ७ और दाऊद और उरिय्याह की विधवा से सुलै-
- ८ मान उत्पन्न हुआ, और सुलैमान से रहवाम और रहवाम से अबिय्याह और अबिय्याह से आसा, और आसा से यहोशाफात और यहोशाफात से योराम और योराम से
- ९ उज्जिय्याह, और उज्जिय्याह से योताम और योताम से
- १० आहाज और आहाज से हिजकिय्याह, और हिजकिय्याह से मनशिशह और मनशिशह से आमोन और आमोन से
- ११ योशिय्याह उत्पन्न हुआ । और बाबिल को पहुंचाये जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उस के भाई उत्पन्न हुए ॥
- १२ बाबिल को पहुंचाये जाने के पीछे यकुन्याह से
- १३ शालतिएल और शालतिएल से जरब्बाबिल, और जरब्बाबिल से अबीहूद और अबीहूद से इल्याकीम
- १४ और इल्याकीम से अजोर, और अजोर से सदोक और
- १५ सदोक से अखीम और अखीम से इलीहूद, और इलीहूद से इलियाजार और इलियाजार से मत्तान और
- १६ मत्तान से याकूब, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरयम का पति था जिस से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ ॥
- १७ इब्राहीम से दाऊद तक सब चौदह पीढ़ी और दाऊद से बाबिल को पहुंचाये जाने तक चौदह पीढ़ी और बाबिल को पहुंचाये जाने के समय से मसीह तक चौदह पीढ़ी ठहरीं ।
- १८ यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ । जब उस की माता मरयम की मंगनी यूसुफ से हुई तो उन

के इकट्ठे होने से पहिले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई । सो उस के पति यूसुफ ने जो धर्मी १९ था उस को बदनाम करना न चाहकर उसे चुपके से त्यागने की मनसा की । जब वह इन बातों के सोचही २० में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के सन्तान तू अपनी पत्नी मरयम को अपने यहां लाने से मत डर क्योंकि जो उस के गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है । वह पुत्र जनेगी और तू उस का नाम यीशु रखना २१ क्योंकि वह अपने लोगों को उन के पापों से छुड़ाएगा । यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन २२ प्रभु ने नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो कि, देखो २३ कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उस का नाम इम्मानुएल रक्खा जायगा जिस का अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ । यूसुफ जाग उठकर प्रभु के दूत २४ के कहे अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया । और उस के पास न गया जब तक कि वह पुत्र न जनी २५ और उस ने उस का नाम यीशु रक्खा ॥

## २. हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूरब से कितने ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि, यहूदियों का राजा जिस का जन्म हुआ कहां है क्योंकि हम ने पूरब में उस का तारा देखा और उस को प्रणाम करने आये हैं । यह सुनकर हेरोदेस ३ राजा और उस के साथ सारा यरूशलेम घबरा गया । और उस ने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों ४ को इकट्ठे कर उन से पूछा मसीह का जन्म कहां होगा । उन्होंने ने उस से कहा यहूदिया के बैतलहम में क्योंकि ५ नबी के द्वारा ये लिखा गया है कि, हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है तू किसी रीति से यहूदा के हाकिमों में सब से छोटा नहीं क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरे लोग इस्राएल की रखवाली करेगा । तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उन से ७

(१) यून० । उद्धार करेगा ।



८ पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया । और उस ने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय ठीक ठीक बूझो और जब उसे पाओ तो मुझे समाचार दो कि मैं भी जाकर उस को प्रणाम ९ करूं । वे राजा की सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने ने पूरब में देखा था वह उन के आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंच कर ठहर गया । उन्होंने उस तारे को देखकर बहुत ही १० बड़ा आनन्द किया । और घर में जाकर उस बालक को उस की माता मरयम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोल कर उस को सोना और लोवान और गन्धरस की भेंट १२ चढ़ाई । और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए ॥

१३ उन के चले जाने के पीछे देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा उठ बालक और उस की माता को लेकर मिसर देश को भाग जा और जब तक मैं तुम्ह से न कहूं तब तक वहीं रहना क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे १४ मरवा डाले । वह रात ही उठकर बालक और उस की १५ माता को लेकर मिसर को चल दिया । और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने नबी के द्वारा कहा था कि मैं ने अपने पुत्र को मिसर से १६ बुलाया पूरा हो । हेरोदेस यह देखकर कि ज्योतिषियों ने भूभ्र से हंसी की है क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनु- १७ सार बैतलहम और उस के आस पास के सारे लड़कों को जो दो बरस के या उस से छोटे थे मरवा डाला । तब जो वचन यिरमयाह नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ १८ कि, रामा में एक शब्द सुनाई दिया रोना और बड़ा बिलाप राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शान्त होना न चाहती थी क्योंकि वे मिलते नहीं ॥

१९ हेरोदेस के मरे पीछे देखो प्रभु के दूत ने मिसर में २० यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि, उठ बालक और उस की माता को लेकर इस्राईल के देश में चला जा क्योंकि जो बालक का प्राण लेना चाहते थे वे मर २१ गए । वह उठ बालक और उस की माता को साथ २२ लेकर इस्राईल के देश में आया । पर यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य करता है वहां जाने से डरा और स्वप्न में २३ चितौनी पाकर गलील देश में गया । और नासरत

नाम नगर में जा बसा कि वह वचन पूरा हो जो नबियों के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा ॥

३. उन दिनों में यहूदा बपतिसमा देनेवाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का २ राज्य निकट आया है । यह वही है जिस की चर्चा ३ यशायाह नबी के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो उस की सड़कें सीधी करो । यह यहूदा ४ जंट के रोम का बन्ध पहिने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बान्धे हुए था और उस का आहार टिड्डियां और बनमधु था । तब यरूशलेम के और ५ सारे यहूदिया के और यरदन के आस पास के सारे देश के लोग उस के पास निकल आने, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उस से बपतिसमा लेने ६ लगे । जब उस ने बहुतेरे फरीसियों और सवूकियों को बपतिसमा के लिये अपने पास आते देखा तो उन से ७ कहा हे सांप के बच्चो किस ने तुम्हें जता दिया कि आने-वाले क्रोध से भागो । सो मन फिराव के योग्य फल ८ लाओ । और अपने अपने मन में न सोचो कि हमारा ९ पिता इब्राहीम है क्योंकि मैं तुम से कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिए सन्तान उत्पन्न कर सकता है । और अब ही कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर १० धरा है इसलिये जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है । मैं तो पानी से ११ तुम्हें मन फिराव का बपतिसमा देता हूं पर जो मेरे पीछे आनेवाला है वह मुझ से शक्तिमान है मैं उस की जूती उठाने के लायक नहीं वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिसमा देगा । उस का सूप उस के हाथ में १२ है और वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और अपने गेहूं के खत्ते में इकट्ठा करेगा पर भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा ॥

तब यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यहूदा के १३ पास उस से बपतिसमा लेने आया । पर यहूदा यह कहकर १४ उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिसमा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है । यीशु ने १५ उस को यह उत्तर दिया कि अब ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीति से सब धर्म को पूरा करना चाहिए तब उस ने उस की मान ली । और यीशु बपतिसमा १६ लेकर तुरन्त पानी में से ऊपर आया और देखो उस के लिये आकाश खुल गया और उस ने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा ।

१७ और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस से मैं प्रसन्न हूँ ॥

२ ४. तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान' उस की परीक्षा करे । वह चालीस दिन और चालीस रात निराहार रहा अन्त में उसे भूख लगी । तब परखनेवाले ने पास आकर कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर यदि रोटियाँ बन जाएँ । उस ने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीता रहेगा । तब शैतान ने उसे पवित्र नगर में ले जाकर मन्दिर के कंगूरे पर खड़ा किया । और उस से कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लें न हो कि तेरे पावों में पत्थर से ठस लगे । यीशु ने उस से कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर । फिर शैतान उसे एक बहुत ऊँचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उस का विभव दिखाकर, उस से कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुम्हें दूंगा । तब यीशु ने उस से कहा हे शैतान दूर हो क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर । तब शैतान उस के पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उस की सेवा करने लगे ॥ फिर यह सुनकर कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया वह गलील को चला गया । और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो भाल क किनार ज़बूलून और नपताली के देश में है जा बसा । कि जा यशायाह नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो । कि ज़बूलून और नपताली के देश भील का और यरदन के पार अन्यजातियों का गलील । जो लोग अधकार में बैठे थे उन्होंने ने बड़ी ज्योति देखी और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति उदय हुई ॥ उस समय से याशु प्रचार करने और यह कहने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है । उसने गलील की भील के किनारे फिरते हुए दो भाई अर्थात् शमौन को जो पतरस कहलाता है और उस के भाई आन्द्रयास को भील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुवे थे । और उन से कहा मेरे पीछे चलो आओ और मैं तुम को मनुष्यों के मछुवे बनाऊंगा । वे तुरन्त जालों को छोड़कर उस के पीछे हो लिये । और वहाँ से आगे

(१) यून० । इबलीस ।

बढ़कर उस ने और दो भाई अर्थात् ज़बदी के पुत्र याकूब और उस के भाई यूहन्ना को अपने पिता ज़बदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया । वे तुरन्त नाव को और अपने पिता को छोड़कर उस के पीछे हो लिये ॥

और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन की सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों में हर बीमारी और दुबलता को दूर करता रहा । और सारे सूरिया में उस का बड़ा नाम हा गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और पीड़ाओं से दुखी थे और जिन में दुष्टात्मा थे और मिर्गीहों और भोले के मारे हुएों को उस के पास लाये और उस ने उन्हें चंगा किया । और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उस के पीछे हो ली ॥

५. वह इस भीड़ को देख कर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठा तो उस के चेले उस के पास आये । और वह अपना मुँह खोल कर उन्हें यह उपदेश देने लगा । धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है । धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांत पाएँगे । धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे । धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किये जाएँगे । धन्य हैं वे जो दयावन्त हैं क्योंकि उन पर दया की जायगी । धन्य हैं वे जो जिन के मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर का देखेंगे । धन्य हैं वे जो मेल करवेंगे हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएँगे । धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है । धन्य हो तुम जब मनुष्य मरे लिए तुम्हारा निन्दा करें और सताएँ और झूठ बालते हुए तुम्हारे अवरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें । आनन्द और मगन हो क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है इसलिये कि उन्हीं ने उन नबियों को जो तुम से पहिले हुए थे इसी रीति से सताया था ॥

तुम पृथ्वी के नमक हो पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा वह फिर किसी काम का नहीं केवल यह कि बाहर फेंका और मनुष्यों से रौंदा जाए । तुम जगत का उजाला हो । जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता । फिर लोग दिया बार के पैमाने के नीचे नहीं पर दीबट पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को उजाला देता है । वैसा ही तुम्हारा उजाला मनुष्यों के

(२) एक बरतन जिस में बंद मन अनाज नापा जाता था ।

सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें ॥

- १७ यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों के लेखों  
 १८ को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं पर पूरा करने आया हूँ क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथिवी टल न जाएं तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिन्दु बिना  
 १९ पूरे हुए न टलेगा। इसलिये जो कोई इन छोटी से छोटी आशाओं में से एक को टाले और लोगों को ऐसा ही सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहलाएगा पर जो कोई उन्हें माने और सिखाए वही  
 २० स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। मैं तुम से कहता हूँ यदि तुम शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर धर्मों न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी जाने न पाओगे ॥
- २१ तुम ने सुना है कि अगलों को कहा गया था कि खून न करना और जो कोई खून करे वह कचहरी में दण्ड के योग्य होगा। पर मैं तुम से कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दण्ड के योग्य होगा और जो कोई अपने भाई से कहे अरे निकम्मा? वह महा सभा में दण्ड के योग्य होगा और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दण्ड के योग्य  
 २३ होगा। सो यदि तू अपनी भेंट बेदी पर लाए और वहां स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी और कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वहां बेदी के सामने छोड़ कर चला जा।  
 २४ पहिले अपने भाई से मेल कर तब आकर अपनी भेंट  
 २५ चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है भ्रष्ट मेल कर ऐसा न हो कि मुद्दई तुम्हें हाकिम को सौंपे और हाकिम तुम्हें पियादे को सौंपे और तू जेलखाने  
 २६ में डाला जाए। मैं तुम्हें से सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा।  
 २७ तुम ने सुना है कि कहा गया था कि व्यभिचार न  
 २८ करना। पर मैं तुम से कहता हूँ जो कोई बुरे मन से किसी स्त्री को देखे वह अपने मन में उस से व्यभिचार कर  
 २९ चुका। यदि तेरी दहिनी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरा एक अंग नाश हो और तेरा सारा शरीर नरक  
 ३० में न डाला जाए। और यदि तेरा दहिना हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरा एक अंग नाश हो और तेरा सारा शरीर नरक में न जाए।

यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी ३१ को त्यागे वह उसे त्याग पत्र दे। पर मैं तुम से कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्यागे वह उस से व्यभिचार कर्ता है और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है ॥

फिर तुम ने सुना है कि अगलों से कहा गया ३३ था कि झूठी किरिया न खाना पर प्रभु के लिए अपनी किरियाओं को पूरी करना। पर मैं तुम से कहता हूँ ३४ किरिया कभी न खाना न स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। न धरती की क्योंकि वह उस के पांवों की चौकी है न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी किरिया न खाना ३६ क्योंकि तू एक बाल को न उजला न काला कर सकता है। पर तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो जो ३७ कुछ इस से अधिक हो वह बुराई से होता है ॥

तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख ३८ के बदले आंख और दांत के बदले दांत। पर मैं तुम से ३९ कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना पर जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उस का और दूसरा भी फेर दे। जो तुम्हें पर नातांश करके तेरा कुरता लेना ४० चाहे उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुम्हें कांस भर ४१ बेगार ले जाए उस के साथ दो कांस चला जा। जो ४२ कोई तुम्हें से मांगे उसे दे और जो तुम्हें से करजा लेना चाहे उस से मुंह न मोड़ ॥

तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने ४३ पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पर मैं ४४ तुम से कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखना और अपने सतानेवालों के लिये प्रार्थना करना। इस से तुम ४५ अपने स्वर्गीय पिता के सन्तान ठहरोगे क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर सुरज उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। यदि तुम ४६ अपने प्रेम रखनेवालों ही से प्रेम रखो तो क्या फल पाओगे क्या महसूल लेनेवाले भी ऐसा ही नहीं करते ॥

और यदि तुम अपने भाइयों ही का नमस्कार ४७ करो तो कौन गा बड़ा काम करते हो क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते। सो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता ४८ सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध हो जाओ।

**६. चौकस** रहे कि तुम मनुष्यों के सामने दिखाने के लिये अपने धर्म के काम न करो नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल न पाओगे ॥

- २ इसलिये जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न फुंकवा जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उन की बड़ाई करें मैं तुम से सच कहता हूँ वे अपना फल पा चुके। पर जब तू दान करे तो जो तेरा दहिना हाथ करता है तेरा बाया हाथ न जानने पाए। कि तेरा दान गुप्त में हो और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे बदला देगा ॥
- ५ जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो क्योंकि लोगों को दिखाने के लिये सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन का भाता है। मैं तुम से सच कहता हूँ वे अपना फल पा चुके। पर जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार मून्द कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे बदला देगा। प्रार्थना करने में अन्यजातियों की नाई बकबक न करो क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। सो तुम उन की नाई न बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहिले जानता है तुम्हें क्या क्या चाहिए। तुम इस रीति से प्रार्थना करना हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथिवी पर भी हो। हमारी दिन भर की गंटी आज हमें दे। और जैसे हम ने अपने अपराधियों के क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों के क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा। इसलिये कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। पर यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा ॥
- १६ जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए क्योंकि वे अपने मुंह मलीन करते हैं कि लोगों को उपवासी दिखाई दें मैं तुम से सच कहता हूँ वे अपना फल पा चुके। पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। कि तू लोगों को नहीं पर अपने पिता को जो गुप्त में है उपवासी दिखाई दे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे बदला देगा ॥
- १९ अपने लिये पृथिवी पर धन बटोर कर न रक्खो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर संध देते और चुराते हैं। पर अपने लिये स्वर्ग में धन

बटोर कर रक्खो जहां न कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न संध देते न चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है इसलिये यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। पर यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधेरा होगा जो उजाला तुझ में है यदि अंधेरा हो तो वह अंधेरा कैसा भारी है। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रक्खेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को हलका जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिये मैं तुम से कहता हूँ अपने प्राण का यह चिन्ता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पीएंगे और न अपने शरीर के लिये कि क्या पहनेंगे क्या भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़ कर नहीं। आकाश के पाँच्च्यों का देखो वे न बोते हैं न लवते और न खचों में बटोरते हैं तौभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन को पालता है क्या तुम उन से बहुत बढ़ कर नहीं। तुम में से कौन है जो चिन्ता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिये क्या चिन्ता करते हों मैदान के सांसनों पर ध्यान करो वे कैसे बढ़ते हैं वे न मिहनत करते न कातते हैं। पर मैं तुम से कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उन में से एक के बराबर पहिने हुए न था। यदि परमेश्वर मैदान की घास का जो आज है और कल भाड़ में भोंकी जायगी ऐसा पहिनाता है तो हे अल्पविश्वासियो वह क्योंकर तुम्हें न पहिनाएगा। सो तुम यह चिन्ता न करना कि क्या खाएंगे क्या पीएंगे या क्या पहनेंगे। अन्यजाति लोग तो इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु चाहिए। पहिले उस के राज्य और धर्म की खोज करो और ये सब वस्तु भी तुम्हें दी जाएगी। सो कल के लिए चिन्ता न करो क्योंकि कल अपनी चिन्ता आप करेगा आज का दुःख आज ही के लिये बहुत है ॥

**७. दोष** न लगाओ कि तुम पर दोष न लगाया जाए। क्योंकि जैसे तुम दोष लगाते हो वैसे ही तुम पर लगाया जायगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जायगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्या देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुम्हें नहीं सूझता। और जब तू अपनी

- आंख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से क्योंकर कह सकता है ठहर जा मैं तेरी आंख के तिनके को ५ निकाल दूं। हे कपटी पहले अपनी आंख से लट्टा निकाल तब अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा ॥
- ६ पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और न अपने मोती सुअरों के आगे डालो ऐसा न हो कि वे उन्हें पात्रों तले रौंदें और फिरकर तुम को फाड़ें ॥
- ७ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा दूँदो तो तुम पाओगे ८ खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो दूँदता है वह पाता है और जो खटखटाता है उस के लिए खोला ९ जायगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि जब उस का १० पुत्र उस से रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। या मछली मांगे ११ तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगनेवालों को अच्छी वस्तुएं क्यों १२ न देगा। जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उन के साथ वैसा ही करो क्योंकि व्यवस्था और नबियों की शिक्षा यही है ॥
- १३ सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो बिनाश को पहुंचाता १४ है और बहुतेरे हैं जो उस से प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थंडे हैं जो उसे पाते हैं ॥
- १५ भूठे नबियों से चौकस रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं पर अन्तर में फाड़नेवाले भेड़िए १६ हैं। उन के फलों से उन्हें पहचानोगे क्या भाड़ियों से १७ अगूर या अंटकटारों से अजीर तोड़ते हैं। योही हर एक अच्छा पेड़ अच्छे फल लाता और निकम्मा पेड़ बुरे फल १८ लाता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं ला सकता न १९ निकम्मा पेड़ अच्छा फल। जो जो पेड़ अच्छे फल नहीं २० लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उन के फलों से उन्हें पहचानोगे। न हर एक जो मुझ से हे २१ प्रभु हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा पर २२ वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझ से कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु क्या हम ने तेरे नाम से नबूवत न की और तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाले और तेरे नाम से बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। २३ तब मैं उन से खुलकर कहूंगा मैं ने तुम को कभी नहीं २४ जाना हे कुकर्म करनेवालो मुझ से दूर हो। इसलिये जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें माने वह उस बुद्धिमान्

मनुष्य की नाई ठहरेगा जिस ने अपना घर चटान पर बनाया। और मंह बरसा और बाढ़ें आईं और आधियां २५ चलीं और उस घर पर लगीं पर वह नहीं गिरा क्योंकि उस की नेव चटान पर डाली गई थी। पर जो कोई मेरी ये २६ बातें सुनकर उन्हें न माने वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिस ने अपना घर बालू पर बनाया। और २७ मंह बरसा और बाढ़ें आईं और आधियां चलीं और उस घर पर लगीं और वह गिर कर सत्यानाश हो गया।।

जब यीशु ये बातें कर चुका तो लोग उस के उपदेश २८ से चकित हुए। क्योंकि वह उन के शास्त्रियों के समान २९ तो नहीं पर अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था ॥

८. जब वह उस पहाड़ से उतरा तो भीड़ की भीड़ उस के पीछे हो ली। और देखा २ एक केंड़ी पास आ उसे प्रणाम करके यह कहने लगा कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ा कर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ ३ शुद्ध हो जा वह तुरन्त केाड़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने ४ उस से कहा देख किसी से न कह पर जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो ॥

जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उस ५ के पास आकर उस से विनती की। कि हे प्रभु मेरा सेवक ६ घर में भोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उम ने उस ७ से कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर ८ दिया कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए पर वचन ही कह तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हूँ ९ और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे को आ तो वह आता है और अपने दास को कि यह कर तो वह करता है। यह सुन कर यीशु ने अचम्भा किया १० और जो उस के पीछे आ रहे थे उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि मैं ने इस्राईल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुम से कहता हूँ कि बहुतेरे पूरब ११ और पच्छिम से आकर इब्राहीम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। पर राज्य के १२ सन्तान बाहर के अंधेरे में डाल दिये जाएंगे वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा १३ जा जैसा तू ने विश्वास किया है वैसा ही तेरे लिये हो और उस का सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया ॥

यीशु ने पतरस के घर में आकर उस की सास को १४ तप में पड़ी देखा। उस ने उस का हाथ छुआ १५ और तप उस पर से उतर गई और वह उठकर उस की

१६ सेवा करने लगी । सांभू को लोग उस के पास बहुत से लोगों को लाए जिन में दुष्ट आत्मा थे और उस ने उन आत्माओं को बात कहते ही निकाल दिया और सब  
१७ बीमारों को चंगा किया । कि जो वचन यशायाह नबी के द्वारा कहा गया था पूरा हो कि उस ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया ॥  
१८ यीशु ने अपने चारों ओर भीड़ की भीड़ देखकर  
१९ पार जाने की आज्ञा दी । और एक शास्त्री ने पास आकर कहा हे गुरु जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे  
२० हो लूंगा । यीशु ने उस से कहा लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं पर मनुष्य के पुत्र  
२१ को सिर धरने की भी जगह नहीं । एक और चेले ने उस से कहा हे प्रभु मुझे पहिले जाने दे कि अपने पिता  
२२ को गाड़ दूं । यीशु ने उस से कहा तू मेरे पीछे हो ले और मुरदों को अपने मुरदों को गाड़ने दे ॥  
२३ जब वह नाव पर चढ़ा तो उस के चेले उस के  
२४ पीछे हो लिए । और देखो भील में ऐसे बड़े हिलकारे उठे कि नाव लहरों से टंपने लगी पर वह सोता था ।  
२५ तब उन्होंने ने पास आकर उसे यह कहकर जगाया कि  
२६ हे प्रभु हमें बचा हम नाश हुए जाते हैं । उस ने उन से कहा हे अल्पविश्वासियो डरते क्यों हो उस ने उठकर  
आंधी और पानी को डांटा और बड़ा चैन हो गया ।  
२७ और वे लोग अचम्भा करके कहने लगे यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उस का मानते हैं ॥  
२८ जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिन में दुष्टात्मा थे कवरों से निकलते हुए उसे मिले जो इतने प्रचण्ड थे कि कोई उस मार्ग से  
२९ न जा सकता था । और देखो उन्होंने ने चिह्ना कर कहा हे परमेश्वर के पुत्र हमारा तुझ से क्या काम क्या तू  
३० समय से पहिले हमें पीड़ा देने यहां आया है । उन से कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक भुंड चर रहा था ।  
३१ दुष्टात्माओं ने उस से यह कहकर बिनती की यदि तू  
३२ हमें निकालता है तो सूअरों के भुंड में भेज दे । उस ने उन से कहा जाओ वे निकलकर सूअरों में पड़े और  
देखो सारा भुंड कड़ाड़े पर से भपटकर पानी में जा  
३३ पड़ा और हूब मरा । पर चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिन में दुष्टात्मा हुए थे उन  
३४ का हाल सुनाया । और देखो सारे नगर के लोग यीशु की भेंट को निकले और उसे देखकर बिनती की कि हमारे सिवानों से निकल जा ॥

१६. वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में पहुंचा । और देखो कई लोग

एक भोले के मारे को खाट पर पड़े हुए उस के पास लाए और यीशु ने उन का विश्वास देखकर उस भोले के मारे से कहा हे पुत्र दाढ़स बांध तेरे पाप क्षमा हुए । और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निन्दा करता है । यीशु ने उन के मन की बातें जानकर कहा तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो । सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कि उठ और चल फिर । पर इसलिये कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथिवी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है (उस ने भोले के मारे से कहा) उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर जा । वह उठ कर घर चला गया । लोग यह देखकर डर गये और परमेश्वर की जिस ने मनुष्यों का ऐसा अधिकार दिया है बढ़ाई करने लगे ॥

वहां से आगे बढ़कर यीशु ने भर्त्सा नाम एक मनुष्य के महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उस से कहा मेरे पीछे हो ले । वह उठकर उस के पीछे हो लिया ॥

जब वह घर में भोजन करने बैठा तो बहुतेरे महसूल लेनेवाले और पापी आकर यीशु और उस के चेलों के साथ खाने बैठे । यह देखकर फरीसियों ने उस के चेलों से कहा तुम्हारा गुरु महसूल लेनेवालों और पापियों के साथ क्यों खाता है । उस ने यह सुनकर उन से कहा वैद्य भले चंगों को नहीं पर बीमारों का अवश्य है । पर तुम जाकर इस का अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूं क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को बुलाने आया हूं ॥

तब यहूदा के चेलों ने उस के पास आकर कहा हम और फरीसी क्यों इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते । यीशु ने उन से कहा क्या बराती जब तक दूलहा उन के साथ रहे शोक कर सकते हैं । पर वे दिन आएंगे कि दूलहा उन से अलग किया जाएगा उस समय वे उपवास करेंगे । केरे कपड़े का पैवन्द पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता क्योंकि यह पैवन्द पहिरावन से और कुछ खींच लेता है और वह और फट जाता है । न नया दाख रस पुरानी मशकों में भरते हैं ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाख रस बह जाता और मशकें नाश होती हैं पर नया दाख रस नई मशकों में भरते हैं और दोनों बची रहती हैं ॥

वह उन से ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी बेटी अभी मरी है पर चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जी जाएगी । यीशु उठकर अपने चेलों समेत

- २० उस के पीछे हो लिया । और देखो एक स्त्री ने जिस के  
 २१ के आंचल को छूआ । क्योंकि अपने जी में सोचा यदि  
 मैं उस के बख्त ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी ।  
 २२ यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा बेटी ठाढ़स बांध  
 तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है सो वह स्त्री उसी  
 २३ षड़ी से चंगी हुई । जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा  
 तो बांसली बजानेवालों और भीड़ को हल्ला मचाते देखकर  
 २४ कहा, अलग हो जाओ लड़की मरी नहीं पर सोती है  
 २५ और वे उस की हंसी करने लगे । जब भीड़ निकाल दी  
 गई तो उस ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और  
 २६ वह उठी । इस की चर्चा उस सारे देश में फैल गई ॥  
 २७ जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उस के  
 २८ पीछे पुकारते हुए चले कि हे दाऊद के सन्तान हम पर  
 दया कर । जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उस के  
 पास आए और यीशु ने उन से कहा क्या तुम्हें विश्वास  
 है कि मैं यह कर सकता हूं उन्हीं ने उस से कहा हां  
 २९ प्रभु । तब उस ने उन की आंखें छूकर कहा तुम्हारे  
 ३० विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिये हो । और उन की  
 आंखें खुल गईं और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा देखो  
 ३१ यह बात कोई न जाने । पर उन्हीं ने निकलकर सारे देश  
 में उस की चर्चा फैला दी ॥  
 ३२ जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गुंगे  
 ३३ को जिस में दुष्टात्मा था उस के पास लाए । जब  
 दुष्टात्मा निकाला गया तो गुंगा बोलने लगा और भीड़  
 ने अच्छम्भा कर कहा इस्राईल में ऐसा कभी न देखा  
 ३४ गया । परन्तु फरीसियों ने कहा यह तो दुष्टात्माओं के  
 सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं के निकालता है ॥  
 ३५ तब यीशु सब नगरों और गांवों में फिरते उन  
 की सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार  
 प्रचार करता और हर एक बीमारी और दुर्बलता को  
 ३६ दूर करता रहा । भीड़ को देखकर उसे लोगों पर तरस  
 आया क्योंकि वे बिन रखवाले की भेड़ों की नाईं व्याकुल  
 ३७ और भटके हुए थे । तब उस ने अपने चेलों से कहा  
 ३८ पकड़े खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं । इसलिये खेत  
 के स्वामी से बिनती करो कि वह अपने खेत काटने  
 ९० के मजदूर भेज दे । और उस ने अपने बारह  
 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं  
 पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब बीमारियों  
 और दुर्बलताओं को दूर करें ।  
 २ बारह प्रेरितों के नाम ये हैं पहिला शमौन जो  
 पतरस कहलाता है और उस का भाई अन्द्रियास

- जबदी का पुत्र याकूब और उस का भाई यूहन्ना । फिलि- ३  
 प्पुस और बर-तुल्मै तोमा और महसूल लेनेवाला मची ४  
 हलफै का पुत्र याकूब और तद्दे । शमौन कनानी और ४  
 यहूदा इस्करियोती जिस ने उसे पकड़वा भी दिया ॥  
 इन बारहों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि ५  
 अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी ५  
 नगर में न जाना । पर इस्राइल के घराने ही की खोई ६  
 हुई भेड़ों के पास जाना । और चलते चलते प्रचार कर ७  
 कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है । बीमारों को ८  
 चंगा करो मरे हुएों को जिलाओ कोढ़ियों को शुद्ध करो ८  
 दुष्टात्माओं को निकालो तुम ने सेंट पाया सेंट दो ।  
 अपने पटुकों में न सोना न रूपा न तांबा रखना । ९  
 मार्ग के लिये न भोली रखो न दो कुरते न जूते न १०  
 लाठी लो क्योंकि मजदूर को अपना भोजन मिलना १०  
 चाहिए । जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता ११  
 लगाओ कि वहां कौन योग्य है और जब तक वहां से न ११  
 निकलो उसी के यहां रहो । घर में जाते हुए उस को १२  
 आशिय देना । यदि उस घर के लोग योग्य हों तो १३  
 तुम्हारा कल्याण उस पर पहुंचेगा पर यदि वे योग्य १३  
 न हों तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा ।  
 और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न १४  
 सुने उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने १४  
 पांवों की धूल भाड़ डालो । मैं तुम से सच कहता हूं १५  
 कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदेम और १५  
 अमोरा के देश की दशा सहने योग्य होगी ॥  
 देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाईं भेड़ियों के बीच में १६  
 भेजता हूं सो सांपों की नाईं बुद्धिमान और कबूतरों की १६  
 नाईं भोले बने । पर लोगों से चौकस रहो क्योंकि वे १७  
 तुम्हें महा सभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में १७  
 तुम्हें कोड़े मारेंगे । तुम मेरे लिये हाकिमों और राजाओं १८  
 के सामने उन पर और अन्यजातियों पर गवाह होने के १८  
 लिये पहुंचाए जाओगे । जब वे तुम्हें सौंपें तो यह चिन्ता १९  
 न करना कि किस रीति से या क्या कहोगे क्योंकि जो १९  
 कुछ तुम को कहना होगा वह उसी षड़ी तुम्हें बता २०  
 दिया जाएगा । क्योंकि बोलनेवाले तुम नहीं हो पर २०  
 तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलनेवाला है । भाई २१  
 भाई को और पिता पुत्र को घात के लिये सौंपेंगे और २१  
 लड़केवाले माता पिता के विरोध में उठ कर उन्हें मरवा २२  
 डालेंगे । मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर २२  
 करेंगे पर जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा उसी का २३  
 उद्धार होगा । जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो २३  
 दूसरे को भाग जाना मैं तुम से सच कहता हूं तुम

इस्राईल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा ॥

- २४ चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने  
 २५ स्वामी से । चेले का गुरु के और दास का स्वामी के  
 बराबर होना ही बहुत है जब उन्होंने ने घर के स्वामी  
 के शैतान<sup>१</sup> कहा तो उस के घरवालों को क्यों न  
 २६ कहेंगे । सो उन से न डरना क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो  
 खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना  
 २७ न जाएगा । जो मैं तुम से अंधेरे में कहता हूं उसे उजाले  
 में कहो और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर  
 २८ से प्रचार करो । जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा  
 को घात नहीं कर सकते उन से न डरना पर उसी से  
 २९ कर सकता है । क्या पैसे में दो गौरिये नहीं बिकतीं तो  
 भी तुम्हारे पिता की इच्छा बिना उन में से एक भी भूमि  
 ३० पर नहीं गिर सकती । तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने  
 ३१ हुए हैं । इसलिये डरो नहीं तुम बहुत गौरियों से बढ़-  
 ३२ कर हो । जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा  
 उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा ।  
 ३३ पर जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे नकारे उसे मैं भी  
 ३४ अपने स्वर्गीय पिता के सामने नकारूंगा । यह न  
 समझो कि मैं पृथिवी पर मिलाप कराने को आया हूं  
 मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया  
 ३५ हूं । मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उस के पिता से  
 और बेटी को उस की मां से और बहू को उस की सास  
 ३६ से अलग कर दूं । मनुष्य के बैरी उस के घर ही के लोग  
 ३७ होंगे । जो माता या पिता को मुझ से अधिक प्रिय  
 जानता है वह मेरे योग्य नहीं और जो बेटा या बेटी  
 को मुझ से अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं ।  
 ३८ और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे  
 ३९ योग्य नहीं । जो अपना प्राण बचाता<sup>२</sup> है वह उसे  
 खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह  
 ४० उसे बचाएगा<sup>३</sup> । जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे  
 ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे  
 ४१ भेजनेवाले को ग्रहण करता है । जो नबी को नबी जान-  
 कर ग्रहण करे वह नबी का बदला पाएगा और जो धर्मी  
 जान कर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा ।  
 ४२ जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जान कर केवल  
 एक कटोरा ढंडा पानी पिलाए मैं तुम से सच कहता हूं  
 वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा ॥

(१) यू० । बालजबूल । (२) यू० । पाता । (३) यू० । पाएगा ।

## ११. जब यीशु अपने बारह चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उन के नगरों में

उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया ॥

- यूहन्ना ने जेलग्वाने में मसीह के कामों का समा- २  
 चार सुनकर अपने चेलों को उस से यह पूछने भेजा, कि ३  
 आनेवाला तू ही है या हम दूसरे की वाट जोहें । यीशु ४  
 ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो ५  
 वह जाकर यूहन्ना से कह दो, कि अंधे देखते और ५  
 लंगड़े चलते फिरते हैं कोढ़ी शुद्ध किये जाते और बहिरे ५  
 सुनते हैं मुरदे जिलाये जाते हैं और कंगालों को ६  
 सुसमाचार सुनाया जाता है । और धन्य है वह जो मेरे ६  
 कारण ठोकर न खाए । जब वे वहां से चल दिए ७  
 तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा तुम ७  
 जंगल में क्या देखने गये थे क्या हवा से हिलते हुए ८  
 सरकण्डे के । फिर तुम क्या देखने गये थे क्या कोमल ८  
 वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को । देखो जो कोमल वस्त्र ९  
 पहिनेते हैं वे राजभवनों में रहते हैं । तो फिर क्यों गये ९  
 थे क्या किसी नबी के देखने को हां मैं तुम से कहता हूं १०  
 बरन नबी से भी बड़े को । यह वही है जिस के विषय १०  
 लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं १०  
 जो तेरे आगे तेरा मार्ग सुधारेगा । मैं तुम से सच ११  
 कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उन में से यूहन्ना ११  
 अपतिसमा देनेवाले से कोई बड़ा नहीं हुआ पर जो ११  
 स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उस से बड़ा है । १२  
 यूहन्ना अपतिसमा देनेवाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के १२  
 राज्य के लिये बल किया जाता है और बलवान् उसे ले १३  
 लेते हैं । यूहन्ना लो सारे नबी और व्यवस्था नबूवत १३  
 करते रहे । और चाहो तो मानो एलिय्याह जो आने- १४  
 वाला था वह यही है । जिस के सुनने के कान हों वह १५  
 सुन ले । मैं इस समय के लोगों की उपमा किस से १६  
 दूं वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए १७  
 एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं । हम ने तुम्हारे लिए १७  
 चांसली बजाई और तुम न नाचे हम ने विलाप किया और १७  
 तुम ने छाती न पीटी । क्योंकि यूहन्ना न खाता आया १८  
 न पीता और वे कहते हैं उस में दुष्टात्मा है । मनुष्य का १९  
 पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और १९  
 पियकड़ मनुष्य महसूल लेनेवालों और पापियों का मित्र । १९  
 पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है ॥

- तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिन में २०  
 उस के बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए गए थे क्योंकि उन्होंने ने २०  
 अपना मन नहीं फिराया था । हाय खुराजीन हाय बैत- २१  
 सैदा जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए यदि वे सर



और सैदा में किए जाते तो टाट जोड़ कर और राख में  
 २२ बैठकर वे कब के मन फिराते । पर मैं तुम से कहता हूँ  
 कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की  
 २३ दशा सहने योग्य होगी । और हे कफरनहूम क्या  
 तू स्वर्ग तक ऊँचा किया जाएगा तू तो अधोलोक तक  
 नीचे जाएगा । जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं  
 यदि सदोम में किये जाते तो वह आज तक बना रहता ।  
 २४ पर मैं तुम से कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से  
 सदोम के देश की दशा सहने योग्य होगी ॥

२५ उसी समय यीशु ने कहा हे पिता स्वर्ग और  
 पृथिवी के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने इन  
 बातों को जानियों और समझदारों से छिपा रक्खा और  
 २६ बालकों पर प्रगट किया । हाँ हे पिता क्योंकि तुझे यही  
 २७ अच्छा लगा । मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और  
 कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता और कोई पिता  
 को नहीं जानता केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे  
 २८ प्रगट करना चाहे । हे सब थके और बोझ से दबे लोगो  
 २९ मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूँगा । मेरा जूआ  
 अपने ऊपर उठा लो और मुझ से सीखो क्योंकि मैं नम्र  
 और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम  
 ३० पाओगे । क्योंकि मेरा जूआ सहज और मेरा बोझ  
 हलका है ॥

**१२.** उस समय यीशु विश्राम के दिन खेतों में  
 जा रहा था और उस के चेलों को  
 भूख लगी तब वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे ।  
 २ फरीसियों ने यह देखकर उस से कहा देख तेरे चले वह  
 काम कर रहे हैं जो विश्राम के दिन करना उचित नहीं ।  
 ३ उस ने उन से कहा क्या तुम ने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने  
 जब वह और उस के साथी भूखे हुए तो क्या किया ।  
 ४ वह क्योंकि परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियाँ  
 खाईं जिन्हें खाना न उसे न उस के साथियों को पर  
 ५ केवल याजकों को उचित था । या तुम ने व्यवस्था में  
 नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन मन्दिर में विश्राम  
 के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते  
 ६ हैं । पर मैं तुम से कहता हूँ कि यहां वह है जो मन्दिर  
 ७ से भी बड़ा है । यदि तुम इस का अर्थ जानते कि मैं  
 दया से प्रसन्न हूँ बलिदान से नहीं तो तुम निर्दोषों को  
 ८ दोषी न ठहराते । मनुष्य का पुत्र तो विश्राम के दिन का  
 भी प्रभु है ॥

९ वहां से चलकर वह उन की सभा के घर में आया ।  
 १० और देखो एक मनुष्य था जिस का हाथ सूखा था और  
 उन्होंने ने उस पर दोष लगाने के लिये उस से पूछा क्या

विश्राम के दिन चंगा करना उचित है । उस ने उन से ११  
 कहा तुम में ऐसा कौन है जिस की एक ही मेड़ हो और  
 वह विश्राम के दिन गड़हे में गिर जाए तो वह उसे पकड़  
 के न निकाले । मनुष्य का मान मेड़ से कितना बढ़ कर १२  
 है इसलिये विश्राम के दिन भलाई करना उचित है ।  
 तब उस ने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा । उस ने १३  
 बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो  
 गया । तब फरीसियों ने बाहर जाकर उस के विरोध १४  
 में सम्मति की कि उसे क्योंकि नाश करे । यह जान १५  
 कर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उस के  
 पीछे हो लिए और उस ने सब को चंगा किया । और १६  
 उन्हें चिताया कि मुझे प्रगट न करना । कि जो वचन १७  
 यशायाह नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि १८  
 देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैं ने चुना है मेरा प्रिय जिस  
 से मेरा मन प्रसन्न है मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा  
 और वह अन्यजातियों को न्याय का समाचार देगा ।  
 वह न भगड़ा करेगा न धूम मचाएगा और न बाजारों १९  
 में कोई उस का शब्द सुनेगा । वह कुचले हुए सरकंडे २०  
 को न तोड़ेगा और धूआं देती बत्ती को न बुझाएगा  
 जब तक न्याय को प्रबल न कराए । और अन्यजातियां २१  
 उस के नाम पर आशा रखेंगी ॥

तब लोग एक अचे गूंगे को जिस में दुष्टात्मा था २२  
 उस के पास लाए और उस ने उमे अच्छा किया यहां  
 तक कि वह गूंगा बोलने और देखने लगा । इस पर २३  
 सब लोग चकित हो कर कहने लगे यह क्या दाऊद का  
 सन्तान है । परन्तु फरीसियों ने यह सुनकर कहा यह २४  
 तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता बिना  
 दुष्टात्माओं को नहीं निकालता । उस ने उन के मन की २५  
 बात जानकर उन से कहा जिस किसी राज्य में फूट होती  
 है वह उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिस में  
 फूट होती है बना न रहेगा । और यदि शैतान ही शैतान २६  
 को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है और  
 उस का राज्य क्योंकि बना रहेगा । भला यदि मैं शैतान २७  
 की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे  
 सन्तान किस की सहायता से निकालते हैं । इस लिये वे  
 ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे । पर यदि मैं परमेश्वर के २८  
 आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो  
 परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है । या क्योंकि २९  
 कर कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुस कर उस का  
 माल लूट सकता है जब तक कि पहिले उस बलवन्त को  
 न बांध ले और तब उस का घर लूट लेगा । जो मेरे ३०

साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं  
 ३१ बटोरता वह विथराता है । इसलिये मैं तुम से कहता  
 हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निन्दा क्षमा  
 की जाएगी पर आत्मा की निन्दा क्षमा न की जाएगी ।  
 ३२ जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा  
 उस का यह अपराध क्षमा किया जाएगा पर जो कोई  
 पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा तो उस का अप-  
 राध न इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा ।  
 ३३ यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उस के फल को भी अच्छा  
 कहो या पेड़ को निकम्मा कहो तो उस के फल को भी  
 निकम्मा कहो । क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है ।  
 ३४ हे साप के बच्चों तुम बुरे हाकर क्योंकि अच्छी बातें  
 कह सकते हो । क्योंकि जो मन में भरा है वही मुँह पर  
 ३५ आता है । भला मनुष्य मन के भले भण्डार से भली  
 बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भण्डार से बुरी  
 ३६ बातें निकालता है । मैं तुम से कहता हूँ कि मनुष्य  
 जो जो निकम्मी बातें कहे न्याय के दिन हर एक बात  
 ३७ का लेखा देगा । क्योंकि तू अपनी बातों से निर्दोष और  
 अपनी बातों से दोषी ठहराया जाएगा ॥  
 ३८ इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने कहा हे  
 ३९ गुरु हम तुम से एक चिन्ह देखना चाहते हैं । उस ने  
 उन्हें उत्तर दिया कि इस समय के बुरे और व्यभिचारी  
 लोग चिन्ह दूढ़ते हैं पर यूनस नहीं क चिन्ह का छोड़  
 ४० कोई चिन्ह उन का न दिया जाएगा । यूनस तीन दिन  
 और तीन रात बड़े जल जन्तु के पेट में था वस ही मनुष्य  
 का पुत्र तीन दिन और तीन रात पृथिवी के भीतर रहगा ।  
 ४१ नौनव के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ  
 खड़े हाकर उन्हें दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने ने यूनस  
 का प्रचार सुन कर मन फिराया और देखो यहाँ वह  
 ४२ है जो यूनस से भी बड़ा है । दाब्लवन की रानी न्याय के  
 दिन इस समय के लोगों के साथ उठ कर उन्हें दोषी  
 ठहराएगी क्योंकि वह सुलैमान का ज्ञान सुनने का पृथिवी  
 की छोर से आई और देखो यहाँ वह है जो सुलैमान से  
 ४३ भी बड़ा है । जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल  
 जाता है तो सूखी जगहों में विश्राम दूढ़ता फिरता  
 ४४ है और पाता नहीं । तब कहता है कि मैं अपने उसी  
 घर में जहाँ से निकला था लौट जाऊँगा और आकर उसे  
 ४५ सूना भाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाता है । तब वह  
 जाकर अपने से और बुरे सात आत्माओं का अपने साथ  
 ले आता है और वे उस में पैठ कर वहाँ बास करते हैं  
 और उस मनुष्य की पिछली दशा पहिले से भी बुरी होती  
 है । इस समय के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी ॥

जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो ४६  
 उस की माता और भाई बाहर खड़े थे और उस से बातें  
 करनी चाहते थे । किसी ने उस से कहा देख तेरी माता ४७  
 और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुम से बातें करनी  
 चाहते हैं । यह सुन उस ने कहनेवाले को उत्तर दिया ४८  
 कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई । और अपने ४९  
 चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ा कर कहा देखो मेरी  
 माता और मेरे भाई ये हैं । क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय ५०  
 पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहिन  
 और माता है ॥

### १३. उसी दिन यीशु घर से निकल कर झील

के किनार जा बैठा । और उस २  
 के पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़  
 कर बैठा और सारी भीड़ किनार पर खड़ी रही । और ३  
 उस ने उन से दृष्टान्तों में बहुत सी बातें कहीं कि देखो  
 एक बोनवाला बीज बोने निकला । बोते हुए कुछ बाज ४  
 मार्ग के किनारे गिरे और पाँचों ने आकर उन्हें चुग  
 लिया । कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न ५  
 मिली और गहरी मिट्टी न मिलने से वे जल्द उग आए ।  
 पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने ६  
 से सूख गए । कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने ७  
 बढ़ कर उन्हें दबा डाला । पर कुछ अच्छी भूमि पर ८  
 गिरे और फल लाए कोई सौ गुना कोई साठ गुना कोई  
 तीस गुना । जिस के कान हों वह सुन ले ॥ ९  
 और चेलों ने पास आकर उस से कहा तू उन से १०  
 दृष्टान्तों में क्या बातें करता है । उस ने उत्तर दिया कि ११  
 तुम को स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई  
 है पर उन को नहीं । क्योंकि जिस के पास है उसे दिया १२  
 जाएगा और उस के पास बहुत हो जाएगा पर जिस के  
 पास कुछ नहीं उस से जो कुछ उस के पास है वह भी  
 ले लिया जाएगा । मैं उन से दृष्टान्तों में इसलिये बातें १३  
 करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए १४  
 नहीं सुनते और नहीं समझते । और उन के विषय १५  
 यशायाह की यह नबूवत पूरी होती है कि तुम कानों से  
 तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आँखों से तो देखोगे  
 पर तुम्हें न सुझेगा । क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो १६  
 गया है और वे कानों से ऊँचा सुनते हैं और उन्हीं ने  
 अपनी आँखें मूढ़ ली हैं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें  
 और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएँ और  
 मैं उन्हें चंगा करूँ । पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे १६  
 देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं । क्योंकि १७

में तुम से सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखीं और जो बातें तुम सुनते हो सुनें पर न सुनीं ।  
 १८ १९ सो तुम बानेवाले का दृष्टान्त सुना । जो काई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता उस के मन में जो कुछ बाया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है यह वही है जो माग क किनार बाया गया २० था । और जो पत्थराली भूमि पर बाया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरन्त आनन्द के साथ मान लेता २१ है । पर अपने में जड़ न रखने से वह थाड़ ही दिन का है और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है २२ ता तुरन्त ठाकर खाता है । जो भाड़ियाँ म बाया गया यह वह है जो वचन का सुनता है पर इस ससार को चिन्ता और धन का धोखा वचन का दबाता है और २३ वह फल नहीं लाता । जो अन्धकी भूमि म बाया गया यह वह है जो वचन का सुनकर समझता है और फल लाता है काई सो गुना काई साठ गुना काई तीस गुना ।  
 २४ उस ने उन्हें एक और दृष्टान्त दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिस ने अपने खेत में २५ अन्धका बीज बाया । पर जब लोग सो रहे थे ता उस का बैरा आकर गेहूँ के बीज जंगली बीज बाकर चला २६ गया । जब अकुर निकले और बाल लगीं तो जंगली २७ दाने भी दिखाई दिए । इस पर यहस्थ के दासों ने आकर उस से कहा है स्वामी क्या तू ने अपने खेत में अन्धका बीज न बाया था फिर जंगली दाने के पीछे उस २८ में कहाँ से आए । उस ने उन से कहा यह किसी बैरा का काम है । दासों ने उस से कहा क्या तरी इच्छा है २९ कि हम जाकर उन को बटोर लें । उस ने कहा ऐसा नहीं न हो कि जंगली दाने के पीछे बटोरते हुए उन के साथ ३० गेहूँ भी उखाड़ लें । कटनी तक दाना को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटनेवालों से कहूँगा पहिले जंगली दाने के पीछे बटोर कर जलाने के लिए उन के गट्टे बांध लो और गेहूँ को मरे खेत में इकट्ठा करो ।  
 ३१ उस ने उन्हें एक और दृष्टान्त दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ३२ ने लेकर अपने खेत में बाया । वह सब बीजों से छाँटा तो है पर जब बढ़ जाता तब सब साग पात से बढ़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पत्ती आकर उस की डालियों पर बसेरा करते हैं ।  
 ३३ उस ने एक और दृष्टान्त उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का

राज्य खमीर के समान है जिस को किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी धाटे में मिलाया और होते होते सब खमीर हो गया ॥

ये सब बातें यीशु ने दृष्टान्तों में लोगों से कही और ३४ बिना दृष्टान्त उन से कुछ न कहता था । कि जो वचन ३५ नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टान्त कहने को अपना मुँह खोलूँगा मैं उन बातों को जो जगत को उत्पन्न से गुप्त रहा प्रगट करूँगा ॥

तब वह भाड़ को छोड़ कर घर में आया और ३६ उस के चला ने उस के पास आकर कहा खेत के जंगली दाने का दृष्टान्त हमें समझा दे । उस ने उन को उत्तर ३७ दिया कि अन्धका बीज का बानेवाला मनुष्य का पुत्र है । खेत ससार है अन्धका बीज राज्य के सन्तान और जंगली ३८ बीज दुष्ट के सन्तान हैं । जिस बैरा ने उन को बाया ३९ वह खेतान है कटनी जगत का अन्त है और काटनेवाले स्वर्गदूत हैं । सो जैसे जंगली दाने बटोर जाते और ४० जलाए जाते हैं वैसे ही जगत के अन्त में होगा । मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों का भेजेगा और वे उस के ४१ राज्य में से सब ठाकर के कारणों का और कुकर्म करनेवालों का बटारेंगे । और उन्हें आग के कुँड में डालेंगे ४२ वहाँ रोना और दाँत पीसना होगा । उस समय धर्मों ४३ अपने पिता के राज्य में सूरज का नाइ चमकेंगे । जिस के कान हो वह सुन ले ॥

स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान ४४ है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मार आनन्द के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को माल लिया ॥

फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है ४५ जो अन्धके मातियों का खोज म था । जब उस ने एक ४६ बड़े माल का माती पाया तो जाकर अपना सब कुछ बेच कर उसे माल लिया ॥

फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है ४७ जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार को मछुलिया को समेट लाया । और जब भर गया तो उस को किनार ४८ पर खींच लायें और बैठकर अन्धका अन्धका तो बरतनों में जमा कीं और निकम्मी निकम्मी फेंक दीं । जगत के ४९ अन्त में ऐसा ही होगा स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुँड में डालेंगे । वहाँ ५० रोना और दाँत पीसना होगा ॥

क्या तुम ने ये सब बातें समझीं । उन्होंने ने ५१, ५२ उस से कहा हाँ उस ने उन से कहा इसलिये हर एक शास्त्री

जो स्वर्ग के राज्य का चेलाबना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भण्डार से नई और पुरानी वस्तुएँ निकालता है ॥

- ५३ जब यीशु ये सब दृष्टान्त कह चुका तो वहाँ से  
 ५४ चला गया । और अपने देश में आकर उन की सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे इस को यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले ।  
 ५५ यह क्या बड़ई का बेटा नहीं क्या इस की माता का नाम मरयम और इस के भाइयों के नाम याकूब और  
 ५६ यूसुफ और शमोन और यहूदा नहीं । और क्या इस की सब बाहनें हमारे बीच में नहीं रहती फिर इस को यह  
 ५७ सब कहां से मिला । तो उन्हों ने उस के विषय ठाकर खाई पर यीशु ने उन से कहा नहीं अपने देश और अपने घर का छोड़ और कहा मर्यादा नहीं होता ।  
 ५८ और उस ने वहाँ उन के आविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए ॥

- २ १४. उस समय चौथाई के राजा हेरॉदेस ने यीशु की चर्चा सुनी । और अपने सेवकों से कहा यह यूहन्ना बर्पातसमा देनेवाला है वह मर हुआ में से जी उठा है इसलिये ये सामर्थ्य के काम उस से प्रगट होते हैं । क्योंकि हेरॉदेस ने अपने भाई फलिप्पुस की पत्नी हेरॉदियास के कारण यूहन्ना का पकड़ कर बांधा और जेलखाने में डाला था । इसलिये कि यूहन्ना ने उस से कहा था कि इस को रखना तुझे उचित नहीं । और वह उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरा क्योंकि वे उसे नहीं जानते थे । पर जब हेरॉदेस का जन्म दिन आया तो हेरॉदियास को बेटा ने उत्सव में नाच कर हेरॉदेस का खुश किया । इसलिये उस ने किरिया खाकर वचन दिया कि जो तू मांगे मैं तुझे दूंगा । वह अपनी माता को उस्काई हुई बाली यूहन्ना बर्पातसमा देनेवाले का सिर थाल में यहाँ तुझे मंगवा दे । राजा उदास हुआ पर अपनी किरिया के और साथ बैठनेवालों के कारण  
 १० आज्ञा की कि दे दिया जाए । और जेलखाने में लोगों  
 ११ को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवाया । और उस का सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह  
 १२ उस को अपनी मां के पास ले गई । और उस के चेला ने आकर और उस की लीथ को ले जाकर गाड़ा और जाकर यीशु को समाचार दिया ॥

- १३ जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह एकान्त में चला गया और लोग  
 १४ यह सुनकर नगर में से पैदल उस के पीछे हो लिए । उस ने निकल कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया  
 १५ और उस ने उन के बीमारों को चंगा किया । जब सांभ

हुई तो उस के चेलों ने उस के पास आकर कहा यह तो सुनसान जगह है और अँबेर हो रही है लोगों को बिदा कर कि वे बास्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें । यीशु ने उन से कहा उन का जाना अवश्य नहीं तुम ही इन्हें खाने को दो । उन्हों ने उस से कहा यहाँ हमारे पास पांच रोटी और दो मछली छोड़ और कुछ नहीं । उसने कहा उन को यहाँ मरे पास ले आओ । तब उस ने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन पांच रोटियों और दो मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियाँ तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को । और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्हों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई बारह टोकरी उठाई । और खानेवाले स्त्रियों और बालकों का छोड़ पाँच हजार पुरुषों के अटकल थे ॥

और उस ने तुरन्त अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि उस से पहिले पार जाएं जब तक कि वह लोगों को बिदा करे । वह लोगों को बिदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांभ के वहाँ अकेला था । उस समय नाव भील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी । रात के चौथे पहर वह भील पर चलते हुए उन के पास आया । चले उस को भील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है और डर के मारे चिल्लाए । यीशु ने तुरन्त उन से बातें की और कहा टाढस बांधो मैं हूँ डरो मत । पतरस ने उस को उत्तर दिया हे प्रभु याद तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर आने की आज्ञा दे । उस ने कहा आ तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा । पर हवा का देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा । यीशु ने तुरन्त हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उस से कहा हे अल्प-विश्वासी क्यों सन्देह किया । जब वे नाव पर चढ़ गये तो हवा थम गई । इस पर जो नाव पर थे उन्हों ने उसे प्रणाम करके कहा सन्धुच तू परमेश्वर का पुत्र है ॥

वे पार उतर कर गजेसरत देश में पहुँचे । और वहाँ ३४, ३५ के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास सारे देश में कहला मेजा और सब बीमारों को उस के पास लाए । और उस से बिनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए ॥

१५. तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे । तेरे चले पुरनियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिन हाथ

३ धोए रोटी खाते हैं । उस ने उन को उत्तर दिया कि तुम भी क्यों अपनी रीतों के कारण परमेश्वर की आज्ञा टालते हो । क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और जो कोई पिता या माता को बुरा कह वह मार डाला जाए । पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कह कि जो कुछ तुम्हें मुझ से लाभ पहुंच सकता था वह संकल्प हो चुका । तो वह अपने पिता का आदर न करे सो तुम ने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया । ७ हे कपटियो यशायाह ने तुम्हारे विषय यह नबूवत ठीक की । कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उन का मन मुझ से दूर रहता है । और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं । और उस ने लांगों को अपने पास बुलाकर उन से कहा सुनो और समझो । जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है । तब चेलों ने आकर उस से कहा क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुन कर ठीकर खाईं । उस ने उत्तर दिया हर एक पीछा जा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा । उन को जान दो वे अबे मार्ग दिखानेवाले हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड़ह में गिर पड़ेंगे । यह सुनकर पतरस ने उस से कहा यह दृष्टान्त हमें समझा दे । उस ने कहा क्या तुम भी अब तक ना समझ हो । क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और सफास में निकल जाता है । पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है । १९ क्योंकि कुचिन्ता, खून, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, २० भूठी गवाही और निन्दा मन ही से निकलती हैं । ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं पर हाथ बिन धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता ॥ २१ यीशु वहां से निकल कर सूर और सैदा के देशों की ओर गया । और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी हे प्रभु दाऊद के सन्तान मुझ पर दया कर मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है । २३ उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया और उस के चेलों ने आकर उस से बिनती कर कहा इसे बिदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है । उस ने उत्तर दिया कि इस्राईल के घराने की खाई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया । पर वह आई और उसे प्रणाम कर २६ कहने लगी हे प्रभु मेरी सहायता कर । उस ने उत्तर दिया

कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं । उस ने कहा सत्य है प्रभु पर कुत्ते भी वह चूरचूर खाते हैं जो उन के स्वामियों की मंज से गिरते हैं । इस पर यीशु ने उस को उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री तेरा विश्वास बढ़ा है जैसा चाहती है तेरे लिये वैसा ही हो और उस की बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई ॥

यीशु वहां से चलकर गलील की भील के पास आया और पहाड़ पर चढ़ कर वहां बैठ गया । और भीड़ पर भीड़ लंगड़ों अंधों गूंगों टुंडों और बहुत औरों का लेकर उस के पास आये और उन्हें उस के पावों पर डाला और उस ने उन्हें चंगा किया । सो जब लांगों ने देखा कि गूंगे बालत टुण्ड चंगे हात लगड़े चलत और अंध देखते हैं तो अचम्भा करके इस्राईल के परमेश्वर को बड़ाई की ॥

यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा मुझ इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे तान दिन से मर साथ हैं और उन के पास कुछ खाने का नहीं और मैं उन्हें भूखा बिदा करना नहीं चाहता न हा कि माग में थक कर रह जाए । चेलों ने उस से कहा हम इस जंगल में कहा से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतना बड़ा भीड़ का तृप्त कर । यीशु ने उन से पूछा तुम्हारे पास कितनी राटिया हैं उन्हें न कहा सात आर थाड़ा सी छोटों मछलिया । तब उस ने लांगों का भूम पर बैठने का आज्ञा दी । और उन सात राटियों और मछलियों का लघन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को दता गया और चल लांगों के । सो सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए सात टोकर उठाए । और खानेवाले स्त्रिया और बालकों का छोड़ चार हजार पुरुष थ । तब वह भीड़ का बिदा कर नाव पर चढ़ गया और मगदन देश में आया ॥

**१६. और** फरीसियों और सद्कियों ने पास

आकर उसे परखने के लिये उस से कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा । उस ने उन को उत्तर दिया कि सांभ के तुम कहते हो कि फरछा होगा क्योंकि आकाश लाल है, और भार के कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुमला है । तुम आकाश का लक्षण देख कर भेद बता सकते हो पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते । इस समय के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह दूढ़ते हैं पर यूनिस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा और वह उन्हें छोड़ कर चला गया ॥

और चले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे । यीशु ने उन से कहा देखो फरीसियों और सद्कियों के खमीर से चौकस रहना । वे आपस में विचार करने

८ लगे कि हम रोटी नहीं लाए । यह जानकर यीशु ने उन से कहा हे अल्प विश्वासियो तुम आपस में क्यों ९ बिचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं । क्या तुम अब तक नहीं जानते और उन पांच हजार की पांच रोटी स्मरण नहीं करते और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई १० थीं । और न उन चार हजार की सात रोटी और न यह ११ कि कितने टोकरे उठाए थे । तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुम से रोटियों के विषय नहीं कहा । फरीसियों और १२ सदूकियों के खमीर से चौकस रहना । तब उन की समझ में आया कि उस ने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था । १३ यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या १४ कहते हैं । उन्हों ने कहा कितने तो यूहन्ना बपतिसमा देनेवाला कहते हैं कितने एलियाह और कितने यिरमया १५ या नबियों में से एक कहते हैं । उस ने उन से कहा पर १६ तुम मुझे क्या कहते हो । शमौन पतरस ने उत्तर दिया १७ कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है । यीशु ने उस को उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं पर मेरे पिता ने जो १८ स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रगट की है । और मैं भी तुझ से कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक १९ उस पर प्रबल न होंगे । मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथिवी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तू पृथिवी पर खोलेगा वह २० स्वर्ग में खुलेगा । तब उस ने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ । २१ उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम जाऊँ और पुरनियों और महायाजकों और शाखियों से बहुत दुख उठाऊँ २२ और मार डाला जाऊँ और तीसरे दिन जी उठूँ । इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे २३ प्रभु परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा । उस ने फिर कर पतरस से कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की २४ बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है । तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहें तो अपने आपे को नकारे और अपना क्रूस उठाए २५ और मेरे पीछे हो ले । क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए २६ अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा । यदि मनुष्य सारे

जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा । मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उस के कामों के अनुसार देगा । मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उन में से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उस के राज्य में आते हुए न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे ।

१७. ऋ: दिन के पीछे यीशु ने पतरस और

याकूब और उस के भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकान्त में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया । और उन के सामने उस का रूप बदल गया और उस का मुंह सूरज की नाई चमका और उस का वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया । और देखो मूसा और एलियाह उस के साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए । इस पर पतरस ने यीशु से कहा हे प्रभु हमारा यहां रहना अच्छा है इच्छा हो तो यहां तीन मण्डप बनाऊँ एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए । वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस से मैं प्रसन्न हूँ इस की सुनो । चले यह सुन कर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए । यीशु ने पास आकर उन्हें छूआ और कहा उठो डरो मत । तब उन्हों ने अपनी आंखें उठा कर यीशु को छोड़ और किसी को न देखा ॥

जब वे पहाड़ से उतरते थे तो यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुआओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुम ने देखा किसी से न कहना । और उस के चेलों ने उस से पूछा फिर शाखी क्यों कहते हैं कि एलियाह का पहिले आना अवश्य है । उस ने उत्तर दिया कि एलियाह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा । पर मैं तुम से कहता हूँ कि एलियाह आ चुका और उन्हों ने उसे नहीं पहिचाना पर जो चाहा उस के साथ किया इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उन के हाथ से दुख उठाएगा । तब चेलों ने समझा कि उस ने हम से यूहन्ना बपतिसमा देनेवाले की चर्चा की है ॥

जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उस के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा । हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर क्योंकि उस को मिर्गी आती है और वह बहुत दुःख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है । और मैं उस को तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके । यीशु

ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगो! मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा कब तक तुम्हारी सहंगा उसे १८  
यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्टात्मा उस में से निकला और लड़का उसी घड़ी १९  
अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकान्त में यीशु के पास २०  
आकर कहा हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। उस ने उन से कहा अपने विश्वास की घटी के कारण क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरककर वहां चला जा और वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अन्धोनी न होगी।

२१ जब वे गलील में थे तो यीशु ने उन से कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। २२  
और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी २३  
उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए ॥

२४ जब वे कफरनहूम में पहुँचे तो मन्दिर के लिए कर लेनेवालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मन्दिर का कर नहीं देता उस ने कहा हाँ देता है। २५  
जब वह घर में आया तो यीशु ने उस के पूछने से पहिले उस से कहा हे शमौन तू क्या समझता है पृथिवी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं अपने पुत्रों से या २६  
परायों से। पतरस ने उस से कहा परायों से। यीशु ने २७  
उस से कहा तो पुत्र बच गए। तौभी इसलिये कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएँ तू भील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहिले निकले उसे ले तुम्हें उस का मुँह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना ॥

**१८. उसी घड़ी चेलों यीशु के पास आकर पूछने लगे स्वर्ग के राज्य में बड़ा**

२ कौन है। इस पर उस ने एक बालक को पास बुलाकर ३  
उन के बीच में खड़ा किया। और कहा मैं तुम से सच कहता हूँ यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो ४  
तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह ५  
स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण ६  
करता है। पर जो कोई इन छोटी में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाये उस के लिये भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उस के गले में लटकवाया जाता और वह गहिरें समुद्र में डुबाया जाता। ७  
ठोकरो के कारण संसार पर हाथ ठोकरो का लगाना

(१) १० । पीढ़ी ।

अवश्य है पर हाथ उस मनुष्य पर जिस के द्वारा ठोकर ८  
लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुम्हें ठोकर ९  
खिलाए तो उसे काटकर फेंक दे दुएडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनन्त आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे १०  
निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना १०  
तेरे लिए इस से भला है कि दो आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो कि तुम इन छोटी में ११  
से किसी को तुच्छ न जानना क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि स्वर्ग में उन के दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। तुम क्या समझते हो यदि किसी मनुष्य के १२  
सौ भेड़ें हों और उन में से एक भटक जाए तो क्या निजानवे को छोड़ कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूँढेगा। और यदि ऐसा हो कि उसे १३  
पाये तो मैं तुम से सच कहता हूँ कि वह उन निजानवे मेड़ों के लिए जो न भटकी थीं इतना आनन्द न करेगा जितना कि इस मेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे १४  
पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा नहीं कि इन छोटी में से एक भी नाश हो ॥

यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले १५  
में बातचीत करके उसे समझा यदि वह तेरी सुने तो तू ने अपने भाई को पा लिया। वह यदि न सुने तो और १६  
एक दो जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुँह से ठहराई जाए। यदि वह उन १७  
की भी न माने तो मण्डली से कह दे पर यदि वह मण्डली की भी न माने तो तू उसे अन्याय और महसूल लेनेवाले के ऐसा जान। मैं तुम से सच कहता १८  
हूँ जो कुछ तुम पृथिवी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तुम पृथिवी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुम से कहता हूँ यदि तुम में से दो जन १९  
पृथिवी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगें एक मन के हाँ तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उन के लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर २०  
इकट्ठे हुए हैं वहाँ मैं उन के बीच में हूँ ॥

तब पतरस ने पास आकर उस से कहा हे प्रभु २१  
यदि मेरा भाई मेरा अपराध करता रहे तो मैं कै बार उसे क्षमा करूँ क्या सात बार तक। यीशु ने उस से कहा २२  
मैं तुझ से यह नहीं कहता कि सात बार बरन सात बार के सत्तर गुने तक। इसलिये स्वर्ग का राज्य उस राजा २३  
के समान है जिस ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा।

(१) यू० । आग के नरक में ।

२४ जब वह लोखा लेने लगा तो एक जन उस के सामने  
 २५ लाया गया जो दस हजार तोड़े धारता था । जब कि  
 भर देने को उस के पास कुछ न था तो उस के स्वामी ने  
 कहा कि यह और इस की पत्नी और लड़केवाले और जो  
 कुछ इस का है सब बेचा जाए और वह क्ररज भर दिया  
 २६ जाए । इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया  
 २७ और कहा हे स्वामी धीरज भर मैं सब कुछ भर दूंगा । तब  
 उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और  
 २८ उस का धार क्षमा किया । पर जब वह दास बाहर  
 निकला तो उस के संगी दासों में से एक उस को मिला  
 जो उस के सौ दीनार<sup>१</sup> धारता था उस ने उसे पकड़ कर  
 उस का गला घोंटा और कहा जो कुछ तू धारता है भर  
 २९ दे । इस पर उस का संगी दास गिर कर उस से विनती  
 ३० करने लगा कि धीरज भर मैं सब भर दूंगा । उस ने न  
 माना पर जाकर उसे जेलखाने में डाल दिया कि जब  
 ३१ तक क्ररज को भर न दे तब तक वहीं रहे । उस के संगी  
 दास यह जो हुआ था देख कर बहुत उदास हुए और  
 ३२ जाकर अपने स्वामी को सारा हाल बता दिया । तब उस  
 के स्वामी ने उस को बुला कर उस से कहा हे दुष्ट दास  
 तू ने जो मुझ से विनती की तो मैं ने तुम्हें वह सारा  
 ३३ क्ररज क्षमा किया । सो जैसे मैं ने तुम्हें पर दया की वैसे  
 ही क्या तुम्हें भी अपने संगी दास पर दया करना चाहिए  
 ३४ न था । और उस के स्वामी ने क्रोध कर उसे दण्ड  
 देनेवालों के हाथ सौंप दिया कि जब तक वह सब क्ररज  
 ३५ भर न दे तब तक उन के हाथ में रहे । यों ही यदि तुम  
 में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो  
 मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम से भी करेगा ॥

**१६. जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील**

से चला गया और यहूदिया के

२ देश में यरदन के पार आया । और बड़ी भीड़ उस के  
 पाँछे हो ली और उस ने उन्हें वहाँ चंगा किया ॥  
 ३ तब फरीसी उस की परीक्षा करने के लिए पास  
 आकर कहने लगे क्या हर एक कारण से अपनी स्त्री को  
 ४ त्यागना उचित है । उस ने उत्तर दिया क्या तुम ने नहीं  
 पढ़ा कि जिस ने उन्हें बनाया उस ने आरम्भ से नर और  
 ५ नारी बनाकर कहा कि, इस कारण मनुष्य अपने माता  
 पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे  
 ६ दोनों एक तन होंगे । सो वे अब दो नहीं पर एक तन  
 हैं इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग  
 ७ न करे । उन्होंने ने उस से कहा फिर मूसा ने क्यों यह

(१) दीनार लगभग आठ आने के था ।

पा० १०६

ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे । उस ने उन से  
 कहा मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें  
 अपनी अपनी पत्नी को छोड़ने दिया पर आरम्भ से ऐसा  
 न था । और मैं तुम से कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार  
 ९ को छोड़ और किसी कारण अपनी पत्नी को त्यागकर  
 दूसरी से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है और जो  
 उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है ।  
 १० चेलों ने उस से कहा यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा  
 सम्बन्ध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं । उस ने उन से कहा  
 ११ सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते केवल वे जिन को  
 यह दान दिया गया है । क्योंकि कोई नपुंसक ऐसे हैं जो  
 १२ माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे और कोई नपुंसक ऐसे हैं  
 जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया और कोई नपुंसक ऐसे हैं  
 जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक  
 बनाया है । जो इस को ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे ॥

तब लोग बालकों को उस के पास लाए कि वह  
 १३ उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे पर चेलों ने उन्हें  
 डांटा । यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और  
 १४ उन्हें मना न करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का  
 है । और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया ॥ १५

और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उस से कहा  
 १६ हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूँ कि अनन्त जीवन  
 पाऊँ । उस ने उस से कहा तू मुझ से भलाई के विषय  
 १७ क्यों पूछता है भला तो एक ही है पर यदि तू जीवन  
 में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर ।  
 उस ने उस से कहा कौन सी आज्ञाएं यीशु ने कहा यह कि  
 १८ खून न करना व्यभिचार न करना चोरी न करना भूठी  
 गवाही न देना । अपने पिता और अपनी माता का आदर  
 १९ करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना ।  
 उस जवान ने उस से कहा इन सब को मैं ने माना अब  
 २० मुझ में किस बात की घटी है । यीशु ने उस से कहा  
 २१ यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर  
 कंगालों को दे और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर  
 मेरे पीछे हो ले । पर वह जवान यह बात सुन उदास  
 २२ होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था ॥

तब यीशु ने अपने चेलों में कहा मैं तुम से सच  
 २३ कहता हूँ कि धनवान् का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना  
 कठिन है । फिर तुम से कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य  
 २४ में धनवान् के प्रवेश करने से ऊँट का सूई के नाके में से  
 निकल जाना सहज है । यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित  
 २५ होकर कहा फिर किस का उद्धार हो सकता है । यीशु ने  
 २६ उन की ओर देख कर कहा मनुष्यों से तो यह नहीं हो



२७ सकता परन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उस से कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं सो हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो बारह सिंहासनों पर बैठकर इस्राईल के बारह गोत्रों का न्याय करोगे।  
 २९ और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहिनों या पिता या माता या लड़केवालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया उस को सौ गुना मिलेगा और वह अनन्त जीवन का अधिकारी होगा। पर बहुतेरे जो पहिले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहिले होंगे ॥

## २०. स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सबेरे निकला कि अपने दाख की

२ बारी में मज़दूरों को लगाए। और उस ने मज़दूरों से एक दीनार<sup>१</sup> रोज ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा।  
 ३ फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर और औरों को बाज़ार में बेकार खड़े देखकर उन से कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा सो वे भी गए। फिर उस ने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया। घड़ी एक दिन रहे फिर निकल कर औरों को खड़े पाया और उन से कहा तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने उस से कहा इस-  
 ७ लिये कि किसी ने हमें मज़दूरी पर नहीं लगाया। उस ने उन से कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांभू के दाख की बारी के स्वामी ने अपने भण्डारी से कहा मज़दूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहिलों तक उन्हें मज़दूरी दे दे।  
 ९ सो जब वे आए जो घड़ी एक दिन रहे लगाए गए  
 १० ये तो उन्हें एक एक दीनार<sup>१</sup> मिला। जब पहिले आए तो यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा पर उन्हें भी एक ही  
 ११ एक दीनार<sup>१</sup> मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा  
 १२ के कहने लगे कि, इन पिछलों ने एक ही घड़ी काम किया और तू ने उन्हें हमारे बराबर कर दिया जिन्होंने  
 १३ दिन भर का भार उठाया और घाम सहा। उस ने उन में से एक को उत्तर दिया कि, हे मित्र मैं तुझ से कुछ अन्याय नहीं करता क्या तू ने मुझ से एक दीनार<sup>१</sup> न  
 १४ ठहराया। जो तेरा है उठा ले और चला जा मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दू।  
 १५ क्या उचित नहीं कि अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ

क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है। इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहिले होंगे और जो पहिले हैं वे पिछले होंगे ॥

यीशु यरूशलेम को जाते हुए बारह चंलों को एकान्त में ले गया और मार्ग में उन से कहने लगा, कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उस को घात के योग्य ठहराएंगे। और उस को अन्यजातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं और कांडे मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा ॥

तब जबदी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उस के पास आकर प्रणाम किया और उस ने कुछ मांगने लगी। उस ने उस से कहा तू क्या चाहती है वह उस से बोली यह कह कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दहिने और एक तेरे बाएं बैठें। यीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा में पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो उन्होंने उस से कहा पी सकते हैं। उस ने उन से कहा तुम मेरा कटोरा तो पीओगे पर अपने दहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं पर जिन के लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर दसों चले उन दोनों भाइयों पर रिसियाए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जां बड़ हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा न होगा पर जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र इस लिये नहीं आया कि उस की सेवा टहल का जाए पर इसलिये आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ीती के लिए अपना प्राण दे ॥

जब वे यरीहों से निकलते थे तो एक बड़ी भीड़ उस के पीछे हो ली। और देखो दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुन कर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु दाऊद के सन्तान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें पर वे और भी चिल्लाकर बोले हे प्रभु दाऊद के सन्तान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उन्होंने उस से कहा हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उन की आंखें छुई और वे तुरन्त देखने लगे और उस के पीछे हो लिए ॥

(१) एक अठ्ठाई के लगभग था।

२१. जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो

२ यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ वहां पहुंचते ही एक गदही बन्धी हुई और उस के साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा उन्हें खोल कर मेरे

३ पास ले आओ । यदि तुम से कोई कुछ कहे तो कहे कि प्रभु के इन का प्रयोजन है तब वह तुरन्त उन्हें भेज देगा । यह इसलिये हुआ कि जो बचन नबी के द्वारा

४ कहा गया था वह पूरा हो, कि सिध्यों की बेटी से कहे देख तेरा राजा तेरे पास आता है वह नम्र और गदहे पर

५ बैठा है बरन लादू के बच्चे पर । चेलों ने जाकर जैसा

६ यीशु ने उन्हें कहा था वैसा ही किया । और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन

७ पर बैठ गया । और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर

८ मार्ग में बिछाई । और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान का होशाना धन्य वह जो प्रभु के

९ नाम से आता है आकाश में होशाना । जब उस ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगें वह कौन है । लोगों ने कहा यही गलील के नासरेत का नबी यीशु है ॥

१० यीशु ने परमेश्वर के मन्दिर में जाकर उन मय के जो मन्दिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्पों के पीड़े और कधूरों के बेचनेवालों की चौकियां

११ उलट दीं । और उन में कहा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा पर तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो । और अंधे और लंगड़े मन्दिर में उर, के

१२ पास आए और उस ने उन्हें चंगा किया । पर जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उस ने किए और लड़कों के मन्दिर में दाऊद के संतान का होशाना पुकारते हुए देखा तो रिसिया कर उस से

१३ कहने लगे क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं । यीशु ने उन से कहा हां क्या तुम ने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तू ने स्तुति सिद्ध

१४ कराई । तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई ॥

१५ भोर को जब वह नगर को लौट रहा था

१६ तो उसे भूख लगी । और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देख कर वह उस के पास गया और पत्तों को

(१) मजन संहिता । ११८ : २५ को देखना ।

(२) यू० । ऊंचे से ऊंचे स्थान ।

छोड़ उस में और कुछ न पाकर उस से कहा अब से तुम में फिर कभी फल न लगे । और अंजीर का पेड़ तुरन्त सूख गया । यह देखकर चेलों ने अचम्भा किया २० और कहा यह अंजीर का पेड़ क्योंकर तुरन्त सूख गया । यीशु ने उन को उत्तर दिया कि मैं तुम से सच कहता २१ हूं यदि तुम विश्वास रखो और सन्देह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है पर यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जायगा । और जो कुछ तुम २२ प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे सो पाओगे ॥

वह मन्दिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि २३ महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उस के पास आकर पूछा तू ये काम किस अधिकार से करता है और तुम्हें यह अधिकार किस ने दिया है । यीशु ने उन को २४ उत्तर दिया कि मैं भी तुम से एक बात पूछता हूं यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं । यूहन्ना का वर्पातसमा कहां २५ से था स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हम से कहेगा फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यों न की । और यदि कहें मनुष्यों की ओर से २६ तो हमें भीड़ का डर है क्योंकि वे सब यूहन्ना के नबी जानते हैं । सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम २७ नहीं जानते । उस ने भी उन से कहा तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं । तुम क्या समझते हो किसी मनुष्य के दो पुत्र थे उस ने २८ पहिले के पास जाकर कहा हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर । उस ने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा पर २९ पीछे पळता कर गया । फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ३० ही कहा उस ने उत्तर दिया जी हां जाता हूं पर गया नहीं । इन दोनों में से किस ने पिता की इच्छा पूरी की ३१ उन्होंने ने कहा पहिले ने । यीशु ने उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूं कि महसूल लेनेवाले और बेश्या तुम से पाहिले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं । क्योंकि ३२ यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुम ने उस की प्रतीति न की, पर महसूल लेनेवालों और बेश्याओं ने उस की प्रतीति की और तुम यह देख कर पीछे भी न पळताए कि उस का प्रतीति करते ॥

एक और दृष्टान्त सुनो । एक गृहस्थ था जिस ने ३३ दाख की बारी लगाई और उस के चारों ओर बाड़ा बांधा और उस में रस का कुंड खोदा और गुम्मत बनाया और किसानों को उस का ठीका देकर परदेश

३४ चला गया । जब फल का समय निकट आया तो उस ने अपने दासों को उस का फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा । पर किसानों ने उस के दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थरबाह किया । फिर उस ने और दासों को भेजा जो पहिलों से अधिक थे और उन्होंने उन से भी वैसा ही किया । पीछे उस ने अपने पुत्र को उन के पास यह कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे । पर किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा यह तो वारिस है आओ उसे मार डालें और उस की मीरास ले लें । और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला । इसलिये जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों से क्या करेगा । उन्होंने ने उस से कहा वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठीका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे । यीशु ने उन से कहा क्या तुम ने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया । यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है । इसलिये मैं तुम से कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुम से ले लिया जाएगा और ऐसी जाति का जो उस का फल लाए दिया जाएगा । जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उस को पीस डालेगा । महायाजक और फरीसी उस के दृष्टान्तों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय कहता है । और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा पर लोगों से डर गये क्योंकि वे उसे नहीं जानते थे ॥

२ २२. इस पर यीशु फिर उन से दृष्टान्तों में कहने लगा । स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिस ने अपने पुत्र का ब्याह किया । और उस ने अपने दासों को भेजा कि नेबतहरियों को ब्याह के भोज में बुलाएँ पर उन्होंने ने आना न चाहा । फिर उस ने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेबतहरियों से कहाँ देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गये हैं और सब कुछ तैयार है ब्याह के भोज में आओ । पर वे बेपरवाई करके चल दिए कोई अपने खेत को कोई अपने ब्योपार को । बाकियों ने उस के दासों को पकड़कर अनादर किया और मार डाला । राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन खूनियों को नाश किया और उन के नगर को फूँक दिया । तब उस ने अपने दासों से कहा

ब्याह का भोज तो तैयार है पर नेबतहरी योग्य नहीं ठहरे । इसलिये चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सब को ब्याह के भोज में बुला लाओ । सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सब को इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया । जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उस ने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का बख न पहिने था । उस ने उस से पूछा हे मित्र तू ब्याह का बख पहिने बिना यहाँ क्योंकर आ गया । उस का मुँह बन्द हो गया । तब राजा ने सेवकों से कहा इस के हाथ पाँव बांधकर उसे बाहर अँधेरे में डाल दो वहाँ रोना और दाँत पीसना होगा । क्योंकि बुलाए हुए बहुत पर चुने हुए थोड़े हैं ॥

तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उस को क्योंकर बातों में फँसाएँ । सो उन्होंने ने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उस के पास यह कहने को भेजा कि, हे गुरु हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवानहीं करता क्योंकि तू मनुष्यों का मुँह देखकर बातें नहीं करता । सो हमें बता तू क्या समझता है कैसर का कर देना उचित है कि नहीं । यीशु ने उन की दुष्टता जानकर कहा हे कपटियों मुझे क्यों परखते हो । कर का सिक्का मुझे दिखाओ तब वे उस के पास एक दीनार ले आये । उस ने उन से पूछा यह मूर्ति और नाम किस का है । उन्होंने ने उस से कहा कैसर का तब उस ने उन से कहा जो कैसर का है वह कैसर का और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर का दो । यह सुन कर उन्होंने ने अचम्भा किया और उसे छोड़ कर चले गये ॥

उसी दिन सड़की जो कहते हैं कि मरे हुआ का जी उठना है ही नहीं उस के पास आये और उस से पूछा कि, हे गुरु मूसा ने कहा था यदि कोई बिना सन्तान मर जाए तो उस का भाई उस की पत्नी को ब्याहकर अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे । अब हमारे यहाँ सात भाई थे पहिला ब्याह करके मर गया और सन्तान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया । इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने किया सातों तक । सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई । सो जी उठने पर वह सातों में से किस की पत्नी होगी क्योंकि वह सब की पत्नी हुई थी । यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते इस कारण

- ३० भूल में पड़ गए हो । क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी पर वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाईं होंगे ।  
 ३१ पर मरे हुआओं के जी उठने के विषय क्या तुम ने यह  
 ३२ वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुम से कहा कि, मैं इब्राहीम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ । सो वह मरे हुआओं का नहीं पर  
 ३३ जीवतों का परमेश्वर है । यह सुन कर लोग उस के उपदेश से चकित हुए ॥  
 ३४ जब फरीसियों ने सुना कि उस ने सदूकियों का  
 ३५ मुंह बन्द कर दिया तो वे इकट्ठे हुए । और उन में से  
 ३६ एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उस से पूछा । हे गुरु  
 ३७ व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है । उस ने उस से कहा  
 तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख ।  
 ३८, ३९ बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है । और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने  
 ४० समान प्रेम रख । ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और नवियों का आधार है ॥  
 ४१ जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उन से पूछा कि,  
 ४२ मसीह के विषय तुम क्या समझते हो वह किस का  
 ४३ सन्तान है उन्हों ने उस से कहा दाऊद का । उस ने उन से पूछा तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्योंकि  
 ४४ कहता है कि, प्रभु ने मरे प्रभु से कहा मरे दहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के नीचे न कर  
 ४५ दूँ । भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उस का पुत्र क्योंकि ठहरा । उस के उत्तर में, कोई भी एक बात न कह सका पर उस दिन से किसी को फिर उस से कुछ पूछने का हियाव न हुआ ॥

### २३. तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों

- २ से कहा । शास्त्री और फरीसी मूसा  
 ३ की गद्दी पर बैठे हैं । इसलिये वे तुम से जो कुछ कहें वह करना और मानना पर उन के से काम न करना  
 ४ क्योंकि वे कहते हैं और करते नहीं । वे ऐसे भारी बोझ जिन को उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कांधों पर रखते हैं पर आप उन्हें अपनी उंगली से  
 ५ भी सरकाना नहीं चाहते । वे अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं वे अपने ताबीजों को चौड़े  
 ६ करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं । जेवनारों में  
 ७ मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन, और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी रब्बी कहलाना  
 ८ उन्हें भाता है । पर तुम रब्बी न कहलाना क्योंकि

तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो । और ९ पृथिवी पर किसी को अपना पिता न कहना क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है । और स्वामी भी १० न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात् मसीह । जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने । ११ जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया १२ जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा ॥

हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय तुम १३ मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो न आप ही उस में प्रवेश करते हो और न उस में प्रवेश करनेवालों को प्रवेश करने देते हो ॥

हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय तुम १४ एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो और जब वह मत में आया है तो उसे अपने से दूना नरकी बनाते हो ॥

हे अंधे अगुवों तुम पर हाय जो कहते हो यदि कोई १६ मन्दिर की किरिया खाए तो कुछ नहीं पर यदि कोई मन्दिर के मोने की किरिया खाए तो उस से बंध जाएगा । हे मूर्खों और अंधो कौन बड़ा है सोना या वह मन्दिर १७ जिस से मोना पवित्र होता है । फिर कहते हो यदि कोई १८ बेदी की किरिया खाए तो कुछ नहीं पर जो भेंट उस पर है यदि कोई उस की किरिया खाए तो बंध जाएगा । हे अंधो कौन बड़ा है भेंट या बेदी जिस से भेंट पवित्र १९ होती है । इसलिये जो बेदी की किरिया खाता है वह २० उस की और जो कुछ उस पर है उस की भी किरिया खाता है । और जो मन्दिर की किरिया खाता है वह उस २१ की और उस में रहनेवाले की भी किरिया खाता है । और २२ जो स्वर्ग की किरिया खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठनेवाले की भी किरिया खाता है ॥

हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय २३ तुम पोदीने और सौंफ और ज़ीरे का दसवां अंश देते हो पर तुम ने व्यवस्था की भारी भारी बातों को अर्थात् न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है । चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते । हे अंधे अगुवों जो मच्छर को तो छान डालते २४ हो पर ऊंट को निगल जाते हो ॥

हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय तुम २५ कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो पर वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं । हे अंधे फरीसी २६ पहिले कटोरे और थाली के भीतर साफ कर कि वे बाहर भी साफ हों ॥

- २७ हे कपटी शास्त्रियो और फरीसियो तुम पर हाय तुम चूना फेरे हुए क्रबरों के समान हो जो ऊपर से तो सुन्दर दिखाई देती हैं पर भीतर मुरदों की हड्डियों और
- २८ सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मा दिखाई देते हो पर भीतर कपट और अधर्म से भरे हो ॥
- २९ हे कपटी शास्त्रियो और फरीसियो तुम पर हाय तुम नबियों की क्रबरें बनाते और धर्मियों की क्रबरें
- ३० संवारते हो। और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो नबियों के खून में उन के
- ३१ साथी न होते। इस से तो तुम अपने पर आप ही गवाही
- ३२ देते हो कि तुम नबियों के घातकों के सन्तान हो। सो
- ३३ तुम अपने बापदादों के पाप का षड़ा भर दो। हे सांपो हे करैतों के बच्चो तुम नरक के दरुड से क्योकर बचांगे।
- ३४ इसलिये देखो मैं तुम्हारे पास नबियों और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ और तुम उन में से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और नगर से नगर खदेड़ते फिरोगे। जिस से धर्मा हावील से लेकर बिर-क्याह के पुत्र ज़करयाह तक जिसे तुम ने मन्दिर<sup>१</sup> और बेदी के बीच मार डाला था जितने धर्मियों का लोहू पृथिवी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर आएगा।
- ३६ मैं तुम से सच कहता हूँ ये सब बातें इस समय के लोगों पर पड़ेंगी ॥
- ३७ हे यरूशलेम हे यरूशलेम तू जो नबियों को मार डालती और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरबाह करती है कितनी ही बार मैं ने चाहा कि जैसे मुरी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है वैसे ही मैं भी
- ३८ तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूँ पर तुम ने न चाहा। देखो
- ३९ तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योकि मैं तुम से कहता हूँ अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है तब तक तुम मुझे कभी न देखोगे ॥

**२४. जब** यीशु मन्दिर से निकल कर जा रहा था तो उस के चले उस को

२ मन्दिर की रचना दिखाने का उस के पास आए। उस ने उन से कहा क्या तुम यह सब नहीं देखते मैं तुम से सच कहता हूँ यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा ॥

३ और जब वह ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों

(१) अर्थात् पवित्रस्थान ।

ने अलग उस के पास आकर कहा हम से कह ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अन्त का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उन को उत्तर दिया चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। क्योकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे देखो न घबराना क्योकि इन का होना अवश्य है पर उस समय अन्त न होगा। क्योकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भुईडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरम्भ होंगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुम से बैर करेंगे। तब बहुतेरे टोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और बहुत से भूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठण्डा हो जाएगा। पर जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार मारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो और तब अन्त आ जाएगा ॥

सो जब तुम उस उजाड़नेवाली घिनित वस्तु को जिस की चर्चा दानिय्येल नबी के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो (जो पड़े वह समझे)। तब जो यहूदिया में ही वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उन के लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या विश्राम के दिन भागना न पड़े। क्योकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा कि जगत के आरम्भ से न अब तक हुआ है और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता पर चुने हुआओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुम से कहे देखो मसीह यहां है या वहां है तो प्रतीति न करना। क्योकि भूठे मसीह और भूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुआओं को भी भरमा दें। देखो मैं ने पहिले से तुम से कह दिया है। इसलिये यदि वे तुम से कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना। देखो वह कोठरियों में है तो प्रतीति न करना। क्योकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पच्छिम तक

(२) यू० । धुग की समाप्ति ।

चमकती जाती है वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना २८  
होगा । जहां लोथ हो वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे ॥

२९ उन दिनों के क्लेश के पीछे तुरन्त सूरज अंधेरा हो  
जाएगा और चांद प्रकाश न देगा तारे, आकाश से गिरेंगे  
३० और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी । तब मनुष्य

के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथिवी  
के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र  
को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर  
३१ आते देखेंगे । और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने  
दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर  
तक चारों दिशा से उस के चूने हुओं को इकट्ठे करेंगे ॥

३२ अंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त सीखो । जब उस की  
डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो

३३ तुम जान लेते हो कि धूप काल निकट है । इसी रीति  
से जब तुम इन सब बातों का देखो तो जान लो कि वह

३४ निकट है वरन द्वार ही पर है । मैं तुम से सच कहता हूँ  
कि जब तक ये सब बातें पूरी न हों तब तक यह लोग

३५ जाते न रहेंगे । आकाश और पृथिवी टल जाएंगे पर मरी

३६ बातें कभी न टलेंगी । उस दिन और उम घड़ी के विषय  
कई नहीं जानता न स्वर्ग के दूत न पुत्र पर केवल

३७ पिता । जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का  
३८ आना भी होगा । क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहिले के

दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उसी  
दिन तक लोग खाते पीते और उन में ब्याह शादी होती

३९ थी । और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा  
न ले गया तब तक उन को कुछ जान न पड़ा वैसे ही

४० मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा । तब दो जन खेत में  
होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा ।

४१ दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी एक ले ली जाएगी और

४२ दूसरी छोड़ी जाएगी । इसलिये जागते रहो क्योंकि तुम  
४३ नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा । पर यह जान

लो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चार किस पहर  
आएगा तो जागता रहता और अपने घर में संध लगने

४४ न देता । इसलिये तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी  
के विषय तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र

४५ आएगा । सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन  
है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया

४६ कि समय पर उन्हें भोजन दे । धन्य है वह दास जिसे उस  
४७ का स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए । मैं तुम से सच

कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहरा-

एगा । पर यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी ४८  
के आने में देर है । और अपने साथी दासों को पीटने ४९  
लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पीए । तो उस दास ५०  
का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उस की बाट न  
जोहता हो और ऐसी घड़ी कि वह न जानता हो । और ५१  
उसे भारी ताड़ना देकर उस का भाग कपटियों के साथ  
ठहराएगा । वहां रांना और दांत पीसना होगा ॥

## २५. तब स्वर्ग का राज्य दस कुंवारियों के

समान ठहरेगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलीं । उन में पांच मूर्ख २  
और पांच समझदार थीं । मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं ३  
पर अपने साथ तेल न लिया । पर समझदारों ने अपनी ४  
मशालों के साथ अपनी कुण्डियों में तेल भर लिया ।  
जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊंधने लगीं और ५  
सा गईं । आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा ६  
आ रहा है उस से भेंट करने को निकलो । तब वे सब ७  
कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं । और ८  
मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें ९  
भी दो क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं । पर सम-  
१० भदारों ने उत्तर दिया कि क्या जाने हमारे और तुम्हारे  
लिए पूरा न हो सो भला है कि तुम बेचनेवालों के  
पास जाकर अपने लिए मोल लो । ज्यों वे मोल लेने को १०  
जा रही थीं त्यों ही दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं  
वे उस के साथ ब्याह के घर में गईं और द्वार बन्द किया  
गया । पीछे वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं ११  
हे स्वामी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे । उम ने १२  
उत्तर दिया कि मैं तुम से सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं  
जानता । इसलिये जागते रहो क्योंकि तुम न वह दिन १३  
और न वह घड़ी जानते हो ॥

क्योंकि यह उस मनुष्य का सा हाल है जिस ने १४  
परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी  
संपत्ति उन को सौंप दी । उस ने एक को पांच तोड़े १५  
दूसरे को दो तीसरे को एक हर एक को उस की सामर्थ्य  
के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया । तब जिस १६  
को पांच तोड़े मिले थे उस ने तुरन्त जाकर उन से लेन  
देन किया और पांच तोड़े और कमाए । इसी रीति से १७  
जिस को दो मिले थे उस ने भी दो और कमाए । पर १८  
जिस को एक मिला था उस ने जाकर मिट्टी खोदी और  
अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए । बहुत दिन पीछे उन १९  
दासों का स्वामी आकर उन से लेखा लेने लगा । जिस २०  
को पांच तोड़े मिले थे उस ने पांच तोड़े और लाकर

कहा हे स्वामी तू ने मुझे पांच तोड़े सौपे थे देख मैं ने  
 २१ पांच तोड़े और कमाए । उस के स्वामी ने उस से कहा  
 धन्य हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास तू थोड़े में विश्वास-  
 योग्य हुआ मैं तुझे बहुत के ऊपर अधिकार दूंगा अपने  
 २२ स्वामी के आनन्द में भागी हो । और जिस को दो तोड़े  
 मिले थे उस ने भी आकर कहा हे स्वामी तू ने मुझे दो तोड़े  
 २३ सौपे थे देख मैं ने दो तोड़े और कमाए । उस के स्वामी  
 ने उस से कहा धन्य हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास  
 तू थोड़े में विश्वासयोग्य हुआ मैं तुझे बहुत के ऊपर  
 अधिकार दूंगा अपने स्वामी के आनन्द में भागी हो ।  
 २४ तब जिस को एक तोड़ा मिला था उस ने आकर कहा  
 हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है जहां  
 नहीं बोया वहां काटता है और जहां नहीं छीटा वहां  
 २५ से बटोरता है । सो मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा  
 मिट्टी में छिपा दिया देख जो तेरा है वह तुझे मिल  
 २६ गया । उस के स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और  
 आलसी दास तू तो जानता था कि जहां मैं ने नहीं बोया  
 वहां काटता हूँ और जहां मैं ने नहीं छीटा वहां से बटोरता  
 २७ हूँ । सो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्पों को देता  
 २८ तब मैं आकर अपना धन न्याज समेत ले लेता । इस  
 लिये वह तोड़ा उस से ले लो और जिस के पास दस  
 २९ तोड़े हैं उसी को दो । क्योंकि जिस किसी के पास है उसे  
 और दिया जाएगा और उस के पास बहुत होगा पर  
 जिस के पास नहीं है उस से वह भी जो उस के पास है  
 ३० ले लिया जाएगा । और इस निकम्मे दास को बाहर के  
 अंधेरे में डाल दो वहां रोना और दांत पीसना होगा ॥  
 ३१ जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा  
 और सब स्वर्गदूत उस के साथ तो वह अपनी महिमा  
 ३२ के सिंहासन पर बैठेगा । और सब जातियां उस के  
 सामने झुकती की जाएंगी और जैसा रखवाला भेड़ों को  
 बकरियों से अलग कर देता है वैसा ही वह उन्हें एक  
 ३३ दूसरे से अलग करेगा । और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी  
 ३४ ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा । तब  
 राजा अपनी दाहिनी ओरवालों से कहेगा हे मेरे पिता के  
 धन्य लोगो आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो  
 जगत के आदि से तुम्हारे लिये तैयार किया हुआ है ।  
 ३५ क्योंकि मैं भूखा था और तुम ने मुझे खाने को दिया मैं  
 पियासा था और तुम ने मुझे पिलाया मैं परदेशी था और  
 ३६ तुम ने मुझे अपने घर में उतारा । मैं नक़्का था और तुम  
 ने मुझे कपड़े पहिनाये बीमार था और तुम ने मेरी खबर  
 ३७ ली मैं जेलखाने में था और तुम मेरे पास आए । तब  
 धर्मी उस को उत्तर देंगे कि हे प्रभु हम ने कब तुझे भूखा

देखा और खिलाया या पियासा देखा और पिलाया । हम ३८  
 ने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में उतारा या ३९  
 नंगा देखा और कपड़े पहिराए । हम ने कब तुझे बीमार ४०  
 या जेलखाने में देखा और तेरे पास आए । तब राजा ४०  
 उन्हें उत्तर देगा मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुम ने जो  
 मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से एक के लिए किया ४१  
 वह मेरे लिए भी किया । तब वह बाईं ओरवालों से ४१  
 कहेगा हे स्नापित लोगो मेरे सामने से उस अनन्त आग  
 में जा पड़ो जो शैतान<sup>१</sup> और उस के दूतों के लिए तैयार ४२  
 की गई है । क्योंकि मैं भूखा था और तुम ने मुझे खाने ४२  
 को नहीं दिया मैं पियासा था और तुम ने मुझे नहीं ४३  
 पिलाया । मैं परदेशी था और तुम ने मुझे अपने घर में ४३  
 नहीं उतारा मैं नंगा था और तुम ने मुझे कपड़े नहीं पहि- ४४  
 राए बीमार और जेलखाने में था और तुम ने मेरी ४४  
 खबर न ली । तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु हम ने कब ४४  
 तुझे भूखा या पियासा या परदेशी या नंगा या बीमार ४५  
 या जेलखाने में देखा और तेरी सेवा टहल न की । ४५  
 तब वह उन्हें उत्तर देगा मैं तुम से सच कहता हूँ ४५  
 कि तुम ने जो इन छोटे से छोटे में से एक के लिए न ४६  
 किया वह मेरे लिए भी न किया । और ये अनन्त दण्ड ४६  
 भोगों<sup>२</sup> पर धर्मी अनन्त जीवन में जा रहेंगे ।

**२६. जब यीशु** ये सब बातें कह चुका तो

अपने चेहों से कहने लगा । तुम २  
 जानते हो कि दो दिन के पीछे फ़सल होगा और मनुष्य ३  
 का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के पकड़वाया जाएगा । ४  
 तब महायाजक और प्रजा के पुरनिए काइफा नाम महा- ५  
 याजक के आंगन में इकट्ठे हुए । और आपस में विचार ६  
 किया कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें । पर वे ७  
 कहते थे कि पर्ब के समय नहीं न हो कि लोगों में ८  
 खलवा मचे ॥

जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था । ९  
 तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमोल अतार लेकर १०  
 उस के पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो ११  
 उस के सिर पर ढाला । यह देखकर उस के चेले रिस- १२  
 याए और कहने लगे इस का क्यों सत्यानाश किया गया । १३  
 यह तो अच्छे दाम पर बिक कर कंगालों को बांटा जा १४  
 सकता था । यह जान कर यीशु ने उन से कहा स्त्री को १५  
 क्यों सताते हो उस ने मेरे साथ भलाई की है । कंगाल १६  
 तुम्हारे साथ सदा रहते हैं पर मैं तुम्हारे साथ सदा न १७  
 रहूंगा । उस ने मेरी देह पर यह अतार जो ढाला है वह मेरे १८  
 गाड़े जाने के लिए किया है । मैं तुम से सच कहता हूँ १९

(१) यू० इबलास ।

(२) मू० में जापों ।

कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उस के इस काम की चर्चा भी उस के स्मरण में की जाएगी ॥

- १४ तब यहूदा इस्करियोती नाम बारहों में से एक ने  
 १५ महायाजकों के पास जाकर कहा । यदि मैं उसे तुम्हारे  
 हाथ पकड़वा दूँ तो मुझे क्या दोगे उन्होंने उसे तीस  
 १६ चांदी के सिक्के तौल कर दे दिये । और यह उसी समय  
 से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा ॥
- १७ अखमीरी रोटी के पर्व के पहिले दिन चले यीशु  
 के पास आकर पूछने लगे तू कहां चाहता है कि हम तेरे  
 १८ लिए फ्रसह खाने की तैयारी करें । उस ने कहा नगर में  
 फुलाने के पास जाकर उस से कहो गुरु कहता है कि मेरा  
 समय निकट है मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां फ्रसह  
 १९ करूंगा । सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फ्रसह  
 २० तैयार किया । जब सांभ हुई तो वह बारहों के साथ  
 २१ भोजन करने बैठा । जब वे खा रहे थे तो उस ने कहा मैं  
 तुम से सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वा-  
 २२ एगा । इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उस से  
 २३ पूछने लगा हे गुरु क्या वह मैं हूँ ? उस ने उत्तर दिया  
 कि जिस ने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे  
 २४ पकड़वाएगा । मनुष्य का पुत्र तो जैसा उस के विषय  
 लिखा है जाता ही है पर उस मनुष्य पर हाथ जिस के  
 द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है । यदि उस  
 मनुष्य का जन्म न होता तो उस के लिए भला होता ।  
 २५ तब उस के पकड़वानेवाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी क्या  
 २६ वह मैं हूँ ? उस ने उस से कहा तू कह चुका । जब वे खा  
 रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशिष मांगकर तोड़ी  
 और चेलों को देकर कहा लो खाओ यह मेरी देह है ।  
 २७ फिर उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें  
 २८ देकर कहा तुम सब इस में से पियो । क्योंकि यह वाचा  
 का मेरा वह लोहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा  
 २९ के निमित्त बहाया जाता है । मैं तुम से कहता हूँ कि  
 दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक  
 तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ ॥
- ३० फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए ॥
- ३१ तब यीशु ने उन से कहा तुम सब इसी रात मेरे  
 विषय ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले  
 को मारूंगा और भुएड की भेड़ें तित्तर वित्तर हो जाएगी ।  
 ३२ पर मैं अपने जी उठने के पीछे तुम से पहिले गलील को  
 ३३ जाऊंगा । इस पर पतरस ने उस से कहा यदि सब तेरे  
 विषय ठोकर खाएं तो खाएं पर मैं कभी ठोकर न  
 ३४ खाऊंगा । यीशु ने उस से कहा मैं तुम्हें से सच कहता हूँ

कि इसी रात मुर्ग के बाग देने से पहिले तू तीन बार मुझ  
 से मुकर जाएगा । पतरस ने उस से कहा चाहे मुझे तेरे ३५  
 साथ मरना भी हो तौभी मैं तुम्हें से कभी न मुकरूंगा ।  
 ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा ॥

तब यीशु अपने चेलों के साथ गतममने नाम जगह ३६  
 में आकर उन से कहने लगा कि यहां बैठे रहो जब तक  
 मैं यहां जाकर प्रार्थना करूं । और वह पतरस और ३७  
 ज़वर्दा के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और  
 बहुत ब्याकुल होने लगा । तब उस ने उन से कहा मेरा ३८  
 जी बहुत उदास है यहां तक कि मैं मरने पर हूँ । तुम  
 यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो । और वह थोड़ा ३९  
 आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा  
 कि हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से  
 हट जाए तौभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पर जैसा  
 तू चाहता है वैसा ही हो । फिर चेलों के पास आकर ४०  
 उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ  
 एक घड़ी भी न जाग सके । जागते रहो और प्रार्थना ४१  
 करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़े आत्मा तो तैयार  
 है पर शरीर दुर्बल है । फिर उस ने दूसरी बार जाकर ४२  
 यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता यदि यह मेरे लिए बिना  
 नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो । तब उस ने फिर ४३  
 आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उन की आंखें नींद से  
 भरी थीं । और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही ४४  
 बात फिर कह कर तीसरी बार प्रार्थना की । तब उस ने ४५  
 चेलों के पास आकर उन से कहा अब सोते रहो और  
 विश्राम करते रहो देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का  
 पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है । उठो चलो ४६  
 देखो मेरा पकड़वानेवाला निकट आ पहुंचा है ॥

वह यह कह ही रहा था कि देखो यहूदा जो ४७  
 बारहों में से था आ गया और उस के साथ महायाजकों  
 और लोगों के पुनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारों  
 और लाठियां लिये हुए आई । उस के पकड़वानेवाले ने ४८  
 उन्हें यह पता दिया था कि जिस को मैं चूमू वही है उसे  
 पकड़ लेना । और तुरन्त यीशु के पास आकर कहा हे ४९  
 रब्बी सलाम और उस को बहुत चूमा । यीशु ने उस से ५०  
 कहा हे मित्र जिस काम को तू आया है वह कर ले ।  
 तब उन्होंने ने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे  
 पकड़ लिया । और देखो यीशु के साथियों में से एक ने ५१  
 हाथ बढ़ा कर अपनी तलवार खींची और महायाजक के  
 दास पर चलाकर उस का कान उड़ा दिया । तब यीशु ५२  
 ने उस से कहा अपनी तलवार काठी में कर क्योंकि जो  
 तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे ।



- ५३ क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से बिनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की बारह पलटन से अधिक  
 ५४ मेरे पास अभी हाज़िर कर देगा । पर पवित्र शास्त्र की वे  
 ५५ बातें कि ऐसा होना अवश्य है क्योंकि पूरी होगी । उसी  
 घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा क्या तुम डाकू जानकर मेरे  
 पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो  
 मैं हर दिन मन्दिर में बैठकर उपदेश किया करता था  
 ५६ और तुम ने मुझे न पकड़ा । पर यह सब इसलिये हुआ  
 है कि नबियों के वचन पूरे हों । तब सब चेले उसे  
 छोड़कर भाग गए ॥
- ५७ और यीशु के पकड़नेवाले उसे काइफा महायाजक  
 के पास ले गए जहां शास्त्री और पुरनिए इकट्ठे हुए थे ।  
 ५८ और पतरस दूर से उस के पीछे पीछे महायाजक के आंगन  
 तक गया और भीतर जाकर अन्त देखने को प्यादों के  
 ५९ साथ बैठ गया । महायाजक और सारी महा सभा यीशु  
 का मार डालने के लिये उस के विरोध में झूठी गवाही  
 ६० की खोज में थे । पर बहुतेरे झूठे गवाहों के आने पर भी  
 ६१ न पाई । अन्त में दो जन आकर कहने लगे कि, इस ने  
 कहा है कि मैं परमेश्वर का मन्दिर ढा सकता और उसे  
 ६२ तीन दिन में बना सकता हूँ । तब महायाजक ने खड़े  
 होकर उस से कहा क्या तू कोई उत्तर नहीं देता ये लोग  
 ६३ तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं । पर यीशु चुप रहा ।  
 महायाजक ने उस से कहा मैं तुझे जीवते परमेश्वर की  
 किरिया देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो  
 ६४ हम से कह दे । यीशु ने उस से कहा तू कह चुका बरन  
 मैं तुम से यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र  
 का सर्वशक्तिमान् की दहिनी ओर बैठे और आकाश के  
 ६५ बादलों पर आते देखोगे । तब महायाजक ने अपने वल्ल  
 फाड़ के कहा इस ने परमेश्वर की निन्दा की अब हमें  
 गवाहों का क्या प्रयोजन देखो तुम ने अभी यह निन्दा  
 ६६ सुनी है । तुम क्या समझते हो उन्होंने ने उत्तर दिया यह  
 ६७ बध होने के योग्य है । तब उन्होंने ने उस के मुंह पर थूका  
 ६८ और उसे घूसे मारे औरों ने थप्पर मार के कहा हे  
 मसीह हम से नबूवत कर कि किस ने तुझे मारा ॥
- ६९ और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक  
 लौंडी ने उस के पास आकर कहा तू भी यीशु गलीली के  
 ७० साथ था । वह सब के सामने मुकर गया और कहा मैं  
 ७१ नहीं जानता तू क्या कह रही है । जब वह बाहर डेवड़ी  
 में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उन से जो वहां  
 ७२ थे कहा यह भी तो यीशु नासरी के साथ था । वह किरिया  
 खाकर फिर मुकर गया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता ।

(१) यू० पवित्रशास्त्र । (२) यू० सामथ ।

थोड़ी देर पीछे जो वहां खड़े थे उन्होंने ने पतरस के पास ७३  
 आकर उस से कहा सचमुच तू भी उन में से एक है  
 क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है । तब वह ७४  
 धिक्कार देने और किरिया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य  
 को नहीं जानता और तुरन्त मुर्ग ने बांग दी । तब पतरस ७५  
 को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग  
 देने से पहिले तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा और  
 बाहर निकल के फूट फूट कर रोने लगा ॥

२७. जब भोर हुई तो सब महायाजकों और  
 लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार

डालने की सम्मति की । और उन्होंने ने उसे बांधा और २  
 ले जाकर पीलातुस हाकिम के हाथ सौंप दिया ॥

जब उस के पकड़वानेवाले यहूदा ने देखा कि वह ३  
 दोषी ठहराया गया तो वह पछताकर वे तीस चांदी के  
 सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया ।  
 और कहा मैं ने निर्दोषी का घात के लिए पकड़वाकर पाप ४  
 किया है । उन्होंने ने कहा हमें क्या तू ही जान । तब वह ५  
 उन सिक्कों का मन्दिर में फेंककर चला गया और जाकर  
 अपने आप को फांसी दी । महायाजकों ने वे सिक्के ६  
 लेकर कहा इन्हें भण्डार में रखना उचित नहीं क्योंकि यह  
 लोहू का दाम है । सो उन्होंने ने सम्मति करके उन सिक्कों ७  
 से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत माल  
 लिया । इस कारण वह खेत आज तक लोहू का खेत ८  
 कहलाता है । तब जो वचन यिरमयाह नबी के द्वारा ९  
 कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्होंने ने वे तीस सिक्के  
 अर्थात् उस मुलाए हुए के मोल को जिसे इस्राईल के  
 सन्तान में से कितनों ने मुलाया था ले लिए । और जैसे १०  
 प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत  
 के दाम में दिया ॥

जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने ११  
 उस से पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है यीशु ने उस से  
 कहा तू आप ही कह रहा है । जब महायाजक और पुरनिए १२  
 उस पर दोष लगा रहे थे तो उस ने कुछ उत्तर न दिया ।  
 सो पीलातुस ने उस से कहा क्या तू सुनता नहीं कि ये १३  
 तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं । पर उस ने उस १४  
 को एक बात का भी उत्तर न दिया यहां तक कि हाकिम  
 ने बहुत अचम्भा किया । और हाकिम की यह रीति थी १५  
 कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए का  
 जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था । उस समय बरअब्बा १६  
 नाम उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था । सो जब वे १७

(३) यू० पवित्रशास्त्र ।

इकट्ठे हुए तो पीलातुस ने उन से कहा तुम किस को चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ बरअब्बा को या १८  
 १९ या कि उन्हीं ने उसे डाह से पकड़वाया था । जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा था तो उस की पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना क्योंकि मैं ने आज सपने में उस के कारण बहुत दुख २०  
 २१ भोगा है । महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं । २२  
 २३ हाकिम ने उन से पूछा कि इन दोनों में से किस को चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूँ । उन्हीं ने कहा २४  
 २५ बरअब्बा को । पीलातुस ने उन से पूछा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूँ । सब ने उस से २६  
 २७ कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए । हाकिम ने कहा क्यों उस ने क्या बुराई की है पर वे और भी चिन्ना चिन्ना २८  
 २९ कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए । जब पीलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता पर इस के उलटे हुल्लड़ हाता जाता है तो उस ने पानी लेकर भीड़ के सामने हाथ धोये और कहा मैं इस धर्मी के ३०  
 ३१ लांहू से निर्दोष हूँ तुम ही जानो । सब लोगों ने उत्तर दिया कि इस का लांहू हम पर और हमारे सन्तान पर ३२  
 ३३ है । इस पर उस ने बरअब्बा को उन के लिए छोड़ दिया और यीशु को काड़े लगवाकर सोप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए ॥ ३४  
 ३५ तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उस के आसपास इकट्ठी की । और ३६  
 ३७ उस के कपड़े उतार कर उसे क्रिमिजी बागा पहिराया । और कांटों का मुकुट गूथकर उस के सिर पर रक्खा और ३८  
 ३९ उस के दहिने हाथ में सरकण्डा दिया और उस के आगे घुटने टेककर उस से ठट्टे से कहा कि हे यहूदियों के राजा सलाम । और उस पर थूका और वही सरकण्डा ४०  
 ४१ ले उस के सिर पर मारने लगे । जब वे उस का ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहिनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले ॥ ४२  
 ४३ बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य मिला उसे बंगार में पकड़ा कि उस का क्रूस उठा ४४  
 ४५ ले चले । और गुलगुता नाम की जगह जो खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुँचकर, उन्हीं ने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया पर उस ने चखकर ४६  
 ४७ पीना न चाहा । तब उन्हीं ने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उस के कपड़े बाँट लिए । और वहाँ ४८  
 ४९ बैठकर उस का पहरा देने लगे । और उस का दोष पत्र

उस के सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है । तब उस के साथ दो डाकू एक दहिने और एक ३८  
 ३९ बाएँ क्रूसों पर चढ़ाए गए । और आने जानेवाले सिर हिला हिलाकर उस की निन्दा करते और यह कहते थे कि, हे मन्दिर के ढानेवाले और तीन दिन में बनानेवाले ४०  
 अपने आप को बचा । यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ । इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों ४१  
 और पुरनियों समेत ठट्टा कर करके कहते थे, इस ने औरों को बचाया अपने को नहीं बचा सकता । यह तो ४२  
 इस्राईल का राजा है । अब क्रूस पर से उतर आए और हम उस पर विश्वास करेंगे । उस ने परमेश्वर पर ४३  
 भरोसा रक्खा है । यदि वह इस को चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले क्योंकि उस ने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ । इसी रीति डाकू भी जो उस के ४४  
 साथ क्रूसों पर चढ़ाये गये थे उस की निन्दा करते थे ॥

दो पहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अधेरा छाया रहा । तीसरे पहर के निकट यीशु ने ४५  
 बड़े शब्द से पुकार कर कहा एली एली लमा शयक्तनी अर्थात् हे मरे परमेश्वर हे मरे परमेश्वर तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया । जो वहाँ खड़े थे उन में से कितना ने यह ४६  
 सुनकर कहा वह एलिथ्याह को पुकारता है । उन में से एक तुरन्त दौड़ा और इस्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकण्डे पर रखकर उसे चुसाया । औरों ने कहा रह ४७  
 जा देखें एलिथ्याह उसे बचाने आता है कि नहीं । तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिन्नाकर प्राण छोड़ा । और ४८  
 देखा मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया और धरती डोली और चटानें फट गई । और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठीं । और उस के जी उठने के पीछे वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गये और बहुतों को दिखाई दिए । तब सूबेदार और जो उस के साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भुईडोल और जो कुछ हुआ था देखकर बहुत ही डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था । वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उस के साथ आई थीं दूर से देख रही थीं । उन में मरयम मगदलीनी और याकूब और योसेस का माता मरयम और ज़बदी के पुत्रों की माता थीं ॥ ५१  
 ५२  
 ५३  
 ५४  
 ५५  
 ५६  
 ५७

जब सांभ हुई तो यूसुफ नाम अरिमातियाह का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया । उस ने पीलातुस के पास जाकर यीशु की लांथ मांगी । इस

- ५९ पर पीलातुस ने देने की आज्ञा दी । यूसुफ ने लोथ को  
 ६० लेकर उसे उजली चादर में लपेटा । और उसे अपनी नई  
 क़बर में रक्खा जो उस ने चटान में खुदवाई थी और  
 क़बर के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का के चला गया ।  
 ६१ और मरयम मगदलीनी और दूसरी मरयम वहां क़बर  
 के सामने बैठी थीं ॥  
 ६२ दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के पीछे का दिन था  
 महायाजकों और फ़रीसियों ने पीलातुस के पास इकट्ठे  
 ६३ हाकर कहा, हे महाराज हमें स्मरण है कि उस भरमाने-  
 वाले ने अपने ज़ाते जी कहा था कि मैं तीन दिन के  
 ६४ पीछे जी उठूंगा । सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक क़बर  
 की रखवाली की जाए न हो कि उस के चले आकर उसे  
 चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुआ  
 ६५ होगा । पीलातुस ने उन से कहा तुम्हारे पास पहरेदार हैं  
 ६६ जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करा । सो वे  
 पहरेदारों के साथ लेकर गए और पत्थर पर छाप देकर  
 क़बर की रखवाली की ॥

## २८. विश्राम के दिन के पीछे अठवारे के

पहिले दिन पह फ़तत मरयम

मगदलीनी और दूसरी मरयम क़बर का देखने आईं ।

- २ और देखा बड़ा भुईंड़ाल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत  
 स्वर्ग से उतरा और पास आकर पत्थर का लुढ़का दिया  
 ३ और उस पर बैठ गया । उस का रूप बिजली सा और  
 ४ उस का वस्त्र पाले का नाईं उजला था । उस के डर के  
 ५ मार पहरेदार काप उठे और मरे हुए से हो गए । स्वर्गदूत  
 ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो मैं जानता हूँ कि  
 तुम याशु के जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूँढती हो ।  
 ६ वह यहा नहीं पर अपने कहने के अनुसार जी उठा

- है आज्ञा यह जगह देखो जहां प्रभु पड़ा था । और ७  
 शीघ्र जाकर उस के चेलों से कहो कि वह मरे हुआ में  
 से जी उठा है और देखो वह तुम से पहिले गलील को  
 जाता है वहां उसे देखोगे देखो मैं ने तुम से कह दिया ।  
 और वे भय और बड़े आनन्द के साथ क़बर से शीघ्र ८  
 चली जाकर उस के चेलों को समाचार देने दौड़ गईं ।  
 और देखो याशु उन्हें मिला और कहा सलाम और उन्हों ९  
 ने पास आकर और उस के पांव पकड़ कर उसे प्रणाम  
 किया । तब याशु ने उन से कहा मत डरो मेरे भाइयों से १०  
 जाकर कहा कि गलील को चले जाए वहां मुझे देखेंगे ॥  
 वे जा रही थीं कि देखा पहरेदारों में से कितनों ने ११  
 नगर में आकर सारा हाल महायाजकों से कह दिया ।  
 तब उन्हों ने पुरनियों के साथ इकट्ठे हाकर सम्मति की १२  
 और सिपाहियों को बहुत चादी देकर बोले कि, यह १३  
 कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उस के चले  
 आकर उस चुरा ले गए । और याद यह बात हाकिम १४  
 के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझाएंगे और तुम्हें  
 खटक से बचा लेंगे । सो उन्हों ने वह चादी लेकर जैसे १५  
 सिखाए गए थे वैसा ही किया और यह बात आज तक  
 यहूदियों में फैली हुई है ॥

- और ग्यारह चले गलील में उस पहाड़ पर गए १६  
 जो याशु ने उन्हें बताया था । और उन्हों ने उस देखकर १७  
 प्रणाम किया पर किसी किसी का सन्देह हुआ । याशु १८  
 ने उन के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का  
 सारा अधिकार मुझे दिया गया है । इसलिये तुम १९  
 जाकर सब जातियों क लोगों को चला करा और उन्हें  
 पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम में बपतिसमा  
 दो । और उन्हें सब बातें जो मैं ने तुम्हें आज्ञा दी है २०  
 मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अन्त तक सब  
 दिन तुम्हारे साथ हूँ ॥

## मरकुस रचित सुसमाचार

### १. परमेश्वर के पुत्र याशु मसीह के सुसमाचार का आरम्भ ।

- २ जैसे यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि देख मैं  
 अपने दूत के तरे आगे भेजता हूँ जो तेरा मार्ग सुधा-  
 ३ रेगा । जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो रहा है कि

- प्रभु का मार्ग तैयार करो उस की सड़कें सीधी करो ।  
 यहूजा आया जो जंगल में बपतिसमा देता और पापों की ४  
 क्षमा के लिए मनफिराव के बपतिसमा का प्रचार करता  
 था । और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब ५  
 रहनेवाले उस के पास निकल आने और अपने अपने

पापों को मान कर यरदन नदी में उस से बपतिसमा लेने  
६ लगे । यूहन्ना ऊट के रोम का वस्त्र पहिने और अपनी  
कमर में चमड़े का पटुका बान्धे हुए था और टिट्टियां  
७ और बन मधु खाया करता था । उस ने प्रचार कर कहा  
मेरे पीछे वह आता है जो मुझ से शक्तिमान् है मैं इस  
८ योग्य नहीं कि झुककर उस के जूतों का बन्ध खोलूं । मैं  
ने तो तुम्हें पानी से बपतिसमा दिया पर वह तुम्हें पावत्र  
आत्मा से' बपतिसमा देगा ॥

९ उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर  
१० यरदन में यूहन्ना से बपतिसमा लिया । और तुरन्त पानी  
से निकल कर ऊपर आते हुए उस न आकाश को फटत  
और आत्मा का कबूतर का नाई अपने ऊपर उतरते  
११ देखा । और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र  
है तुझ स में प्रसन्न हूं ॥

१२ तब आत्मा न तुरन्त उस को जंगल की ओर  
१३ भेजा । और जंगल में चालीस दिन तक शैतान न उस  
को परीक्षा की और वह बन पशुओं के साथ रहा और  
स्वगदूत उस को सेवा करते रहे ॥

१४ यूहन्ना के पकड़वाए जाने के पीछे यीशु ने गलील  
में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया ।

१५ और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट  
आया है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो ॥

१६ गलील की झाल के किनारे किनारे जाते हुए उस  
ने शमीन और उस के भाई आन्द्रयास का झाल में जाल

१७ डालते देखा क्योंकि वे मछुव थे । और यीशु ने उन से  
कहा मर पाछे चले आओ मैं तुम का मनुष्या के मछुव

१८ बनाऊंगा । वे तुरन्त जालों का छोड़कर उस के पीछे हा  
१९ लिये । और कुछ आगे बढ़कर उस ने ज़बर्दा के पुत्र

२० याकूब और उस के भाई यूहन्ना का नाव पर जालों का  
सुधारते देखा । उस ने तुरन्त उन्हें बुलाया और वे

अपने पिता ज़बर्दा का मज़दूरा के साथ नाव पर छोड़कर  
उस के पीछे चले गये ॥

२१ और वे कफरनहूम में आए और वह तुरन्त  
विश्राम के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा ।

२२ और लोग उस के उपदेश से चकित हुए क्योंकि वह उन्हें  
शास्त्रियों की नाई नहीं पर अधिकारों की नाई उपदेश

२३ देता था । उसी समय उन को सभा के घर में एक मनुष्य  
२४ था जिस में एक अशुद्ध आत्मा था । उस ने चिल्लाकर

कहा है यीशु नासरा हमें तुझ से क्या काम । क्या तू हमें  
नाश करने आया है । मैं तुम्हें जानता हूं तू कौन है

२५ परमेश्वर का पवित्र जन । यीशु ने उसे डाटकर कहा  
(१) या । मैं ।

चुप रह और उस में से निकल जा । तब अशुद्ध आत्मा २६  
उस को मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उस में से  
निकल गया । इस पर सब लोग ऐसे अचम्भित हुए कि २७  
आपस में पूछ पूछ करके कहने लगे यह क्या बात है ।  
यह तो कोई नया उपदेश है वह अधिकार के साथ  
अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उस की  
मानते हैं । सो उस का नाम तुरन्त गलील के भास पास २८  
के सारे देश में हर जगह फैल गया ॥

सभा के घर से तुरन्त निकलकर वे याकूब और २९  
यूहन्ना के साथ शमीन और अन्द्रियास के घर में आए ।  
और शमीन की सास तप में पड़ी थी और उन्हीं ने ३०  
तुरन्त उस के विषय उस से कहा । तब उस ने पास जा ३१  
उस का हाथ पकड़ के उसे उठाया और तप उस पर से  
उतर गई और वह उन को सेवा करने लगी ॥

सभ के जब सूरज डूब गया तो लाग सब बाजारों ३२  
और उन्हें जिन में दुष्टात्मा थे उस के पास लाए । और ३३  
सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ । और उस ने बहुतों ३४  
को जो नाना प्रकार का बाजारियों से दुखी थे चंगा किया  
और बहुत दुष्टात्माओं का निकाला और दुष्टात्माओं को  
बालने न दिया क्योंकि वे उस पहचानते थे ॥

और भीर के दिन निकलने से बहुत पहिले वह ३५  
उठकर निकला और जंगली जगह में जाकर वहा प्राथना  
करने लगा । तब शमीन और उस के साथी उस का खोज ३६  
में गए । जब वह अमला तो उस से कहा सब लाग तुम्हें ३७  
दूढ़ रहे हैं । उस ने उन से कहा आओ हम और कहीं ३८  
आस पास का बास्तिया में जाए कि मैं वहा भी प्रचार  
करू क्योंकि मैं इसी लिए निकला हूं । सो वह सारे ३९  
गलील में उन की सभाओं में जा जाकर प्रचार करता  
और दुष्टात्माओं को निकालता रहा ॥

और एक कोढ़ी ने उस के पास आकर उस से ४०  
बिनती की और उस के सामने घुटने टेककर उस से कहा  
यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है । उस ने उस पर ४१  
तरसखाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं  
शुद्ध हो जा । और तुरन्त उस का काढ़ जाता रहा और वह ४२  
शुद्ध हो गया । तब उस ने उसे चिताकर तुरन्त बिदा किया । ४३  
और उस से कहा देख किसी से कुछ न कह पर जा ४४  
अपने आप को याजक के दिखा और अपने शुद्ध होने के  
विषय जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा कि उन  
पर गवाही हो । पर वह बाहर जाकर इस बात को बहुत ४५  
प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर  
खुल्लमखुल्ला नगर में न जा सका पर बाहर जंगली जगहों  
में रहा और चारों ओर से लोग उस के पास आते रहे ॥

## २. कई दिन के पीछे वह फिर कफरनडूम में आया और सुना गया कि वह घर

- २ में है । फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी  
 ३ जगह न मिली और वह उन्हें बचन सुना रहा था । और  
 कई लोग एक भोले के मारे हुए को चार मनुष्यों से  
 ४ उठवाकर उस के पास ले आए । पर जब वे भीड़ के  
 कारण उस के निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छूत  
 को जिस के नीचे वह था खोल दिया और जब उसे उधेड़  
 चुके तो उस खाट को जिस पर भोले का मारा पड़ा था  
 ५ लटका दिया । यीशु ने उन का विश्वास देखकर उस  
 ६ भोले के मारे से कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए । और  
 कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार  
 ७ करने लगे कि, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है यह तो  
 परमेश्वर की निन्दा करता है परमेश्वर को छोड़ और  
 ८ कौन पाप क्षमा कर सकता है । यीशु ने तुरन्त अपने  
 आत्मा में जाना कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार  
 कर रहे हैं और उन से कहा तुम अपने अपने मन में यह  
 ९ विचार क्यों कर रहे हो । सहज क्या है क्या भोले के मारे  
 से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि  
 १० उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर । पर जिस से तुम  
 जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथिवी पर पाप क्षमा करने  
 का अधिकार है (उस ने उस भोले के मारे से कहा) ।  
 ११ मैं तुम्ह से कहता हूं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर  
 १२ चला जा । और वह उठा और तुरन्त खाट उठाकर और  
 सब के सामने निकलकर चला गया । इस पर सब चकित  
 हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हम ने  
 ऐसा कभी न देखा ॥
- १३ वह फिर निकलकर भील के किनारे गया और सारी  
 भीड़ उस के पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा ।  
 १४ जाते हुए उस ने हलफई के पुत्र लेवी को महसूल की चौकी  
 पर बैठ देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले । और वह  
 १५ उठकर उस के पीछे हो लिया । और वह उस के घर में  
 भोजन करने बैठा और बहुत से महसूल लेनेवाले और पापी  
 यीशु और उस के चेलों के साथ भोजन करने बैठे क्योंकि  
 वे बहुत थे और उस के पीछे हो लिये थे । और शास्त्रियों  
 १६ और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और  
 महसूल लेनेवालों के साथ भोजन कर रहा है उस के चेलों  
 से कहा, वह तो महसूल लेनेवालों और पापियों के साथ  
 १७ खाता पीता है । यीशु ने यह सुनकर उन से कहा वैद्य भले  
 चंगों के नहीं पर बीमारों को अवश्य है । मैं धर्मियों को  
 नहीं पर पापियों को बुलाने आया हूं ॥
- १८ यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे और

उन्होंने आकर उस से यह कहा कि यूहन्ना के और फरीसियों  
 के चेले क्यों उपवास रखते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं  
 रखते । यीशु ने उन से कहा जब तक दूल्हा बरातियों के १९  
 साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं । सो जब तक  
 दूल्हा उन के साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते ।  
 पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उन से अलग किया जाएगा २०  
 उस समय वे उपवास करेंगे । कोरे कपड़े का पैवन्द पुराने २१  
 पहिरावन पर कोई नहीं लगाता नहीं तो वह पैवन्द उस  
 से कुछ खींच लेगा अर्थात् नया पुराने से और वह और  
 फट जाएगा । और नया दाख रस पुरानी मशकों में कोई २२  
 नहीं भरता नहीं तो दाख रस मशकों को फाड़ देगा और  
 दाख रस और मशकों दोनों नाश हो जाएंगी पर नया  
 दाख रस नई मशकों में भरते हैं ॥

बिश्राम के दिन यीशु खेतों में से जा रहा था और २३  
 उस के चेले चलते चलते बालें तोड़ने लगे । तब फरी- २४  
 सियों ने उस से कहा देख ये विश्राम के दिन वह काम  
 क्यों करते हैं जो उचित नहीं । उस ने उन से कहा क्या २५  
 तुम ने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को जरूरत थी  
 और वह और उस के साथी भूखे हुए तब उस ने क्या  
 किया था । उस ने क्योंकर अबियातार महायाजक के २६  
 समय परमेश्वर के घर में जाकर भेंट की रोटियां खाईं  
 जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित  
 नहीं और अपने साथियों को भां दीं । और उस ने उन २७  
 से कहा विश्राम का दिन मनुष्य के लिए ठहराया गया  
 है न कि मनुष्य विश्राम के दिन के लिए । सो मनुष्य २८  
 का पुत्र विश्राम के दिन का भी प्रभु है ॥

## ३. और वह फिर सभा के घर में गया और

वहां एक मनुष्य था जिस का हाथ  
 सूख गया था । और वे उस पर दोष लगाने के लिए उस २  
 की तक में लगे थे कि वह विश्राम के दिन उसे चंगा  
 करेगा कि नहीं । उस ने सूखे हाथवाले मनुष्य से कहा ३  
 बीच में खड़ा हो । और उन से कहा क्या विश्राम के दिन ४  
 भला करना या बुरा करना जीव को बचाना या मारना  
 उचित है पर वे चुप रहे । और उस ने उन के मन की ५  
 कठोरता से उदास होकर उन को क्रोध से चारों ओर देखा  
 और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, उस ने बढ़ाया  
 और उस का हाथ फिर अच्छा हो गया । तब फरीसी बाहर ६  
 जाकर तुरन्त हेरोदियों के साथ उस के विरोध में सम्मति  
 करने लगे कि उसे क्योंकर नाश करें ॥

यीशु अपने चेलों के साथ भील की ओर गया ७  
 और गलील से बहुत से लोग उस के पीछे हो लिए और

८ यहूदिया और यरूशलेम और इदूमया से और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से बहुत से लोग यह सुनकर कि वह कैसे बड़े काम करता है उस के पास आए । और उस ने अपने चेलों से कहा भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिये तैयार रहे न हो कि वे १० मुझे दबाएँ । क्योंकि उस ने बहुतों को अच्छा किया था यहां तक कि जितने रोगी थे उसे छूने को उस पर गिरे ११ पड़ते थे । अशुद्ध आत्मा भी जब उसे देखते थे तो उस के आगे गिरते और चिल्लाकर कहते थे कि तू परमेश्वर १२ का पुत्र है । और उस ने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रगट न करना ॥

१३ और वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाया और वे उस के पास चले आए । १४ तब उस ने बारह जनों को ठहराया कि वे उस के साथ १५ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और १६ दुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार रखें । और वे ये १७ हैं शमौन जिस का नाम उस ने पतरस रक्खा । और ज़बदी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिन का नाम उस ने बूअनरगिस अर्थात् गर्जन के पुत्र रक्खा । १८ और आन्द्रयास और फिलिप्पुस और बरतुलमै और मत्ती और तोमा और हलफ़ई का पुत्र याकूब और तद्दी और १९ शमौन कनानी । और यहूदा इस्करियोती जिस ने उसे पकड़वा भी दिया ॥

२० और वह घर में आया । और ऐसी भीड़ इकट्ठी २१ हो गई कि वे रोटी भी न खा सके । जब उस के कुटुम्बियों ने सुना तो उसे पकड़ने को निकले क्योंकि २२ कहते थे कि उस का चित्त ठिकाने नहीं है । तब शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यह कहने लगे कि उस में २३ सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है । और वह उन्हें पास बुलाकर उन से दृष्टान्तों में कहने लगा शैतान २४ क्योंकि शैतान को निकाल सकता है । और यदि किसी २५ राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य रह नहीं सकता । और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर रह नहीं सकता । २६ और यदि शैतान अपने ही विरोध में होकर अपने में फूट डाले तो वह बना नहीं रह सकता पर उस का अन्त २७ हो जाता है । और कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उस का माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहिले उस बलवन्त को न बान्ध ले और तब उस के २८ घर को लूट लेगा । मैं तुम से सच कहता हूँ कि मनुष्यों

के सन्तान के सब पाप और निन्दा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी । पर जो कोई पवित्रात्मा के विषय निन्दा २९ करे वह कभी क्षमा न किया जाएगा पर अनन्त पाप का अपराधी ठहरता है । क्योंकि वे यह कहते थे कि उस में ३० अशुद्ध आत्मा है ॥

और उस की माता और उस के भाई आए और ३१ बाहर खड़े होकर उसे बुला भेजा । और भीड़ उस के आस ३२ पास बैठी थी और उन्होंने उस से कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूँढ़ते हैं । उस ने उन्हें उत्तर ३३ दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं । और उन ३४ पर जो उस के आस पास बैठे थे दृष्टि करके कहा देखो मेरी माता और मेरे भाई । क्योंकि जो कोई परमेश्वर की ३५ इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहिन और माता है ॥

## ४. वह फिर भील के किनारे उपदेश करने

लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उस के पास इकट्ठी हो गई कि वह भील में एक नाव पर चढ़ कर बैठा और सारी भीड़ भूमि पर भील के किनारे रही । और वह उन्हें दृष्टान्तों में बहुत सी बातें सिखाने लगा २ और अपने उपदेश में उन से कहा । सुनो देखो एक बोने- ३ वाला बीज बोने निकला । और बोते हुए कुछ मार्ग के ४ किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया । और कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरा जहां उस को बहुत ५ मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया । और जब सूरज निकला तो जल गया ६ और जड़ न पकड़ने से सूख गया । और कुछ झाड़ियों ७ में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया । पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरा ८ और उगा और बढ़कर फला और कोई तीस गुना कोई साठ गुना कोई सौ गुना फल लाया । और उस ने कहा ९ जिस के सुनने के कान हों वह सुन ले ॥

जब वह अकेला रह गया तो उस के साथी उन १० बारह समेत उस से इन दृष्टान्तों के विषय पूछने लगे । उस ने उन से कहा तुम को परमेश्वर के राज्य ११ के भेद की समझ दी गई है पर बाहरवालों के लिए सब बातें दृष्टान्तों में होती हैं । इसलिये कि वे देखते हुए देखें १२ और उन्हें न सूझे और सुनते हुए सुनें और न समझें ऐसा न हो कि वे फिर और क्षमा किए जाए । फिर उस १३ ने उन से कहा क्या तुम यह दृष्टान्त नहीं समझते तो सब दृष्टान्तों को क्योंकि समझोगे । बोनेवाला वचन १४

- १५ बोता है । मार्ग के किनारे के जहां वचन बोया जाता है वे वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरन्त आकर वचन को जो उन में बोया गया था उठा ले १६ जाता है । और वैसे ही जो पत्थरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरन्त आनन्द से १७ मान लेते हैं । पर अपने में जड़ न रखने से वे थोड़ी ही देर के हैं इस के पीछे जब वचन के कारण क्लेश या १८ उपद्रव होता है तो तुरन्त टोकर खाते हैं । और जो १९ झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन सुना, और संसार की चिन्ता और धन का धोखा और और वस्तुओं का लोभ उन में समाकर वचन को दबा देता है और २० वह फल नहीं लाता । और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे वे हैं जो वचन सुनकर मानते और फल लाते हैं कोई तीस गुना कोई साठ गुना कोई सौ गुना ॥
- २१ और उस ने उन से कहा क्या दिये को इसलिये लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रक्खा जाए क्या २२ इसलिये नहीं कि दीवट पर रक्खा जाए । कुछ छिया नहीं पर इसलिये कि प्रगट किया जाए और न कुछ गुप्त है २३ पर इसलिये कि प्रगट हो जाए । यदि किसी के सुनने २४ के कान हों तो सुन ले । फिर उस ने उन से कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिये नापा जाएगा और तुम को और २५ दिया जाएगा । क्योंकि जिस के पास है उस को दिया जाएगा । पर जिस के पास नहीं उस से जो कुछ उस के पास है वह भी ले लिया जाएगा ॥
- २६ फिर उस ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है २७ जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे । और रात दिन सोए और जागे और वह ऐसे उगे और बढ़े कि वह न २८ जाने । क्योंकि पृथ्वी आप से आप फल लाती है पहिले २९ अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना । पर जब दाना पक चुका है तब वह तुरन्त हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है ॥
- ३० फिर उस ने कहा हम परमेश्वर का राज्य किस की नाई ठहराए और किस दृष्टान्त से उम का बन्धान करें । यह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है । ३१ पर जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उस की ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उस की छाया में बसेरा कर सकते हैं ॥

(१) एक बरतन जिस में डेढ़ मन अनाज नापा जाता है ।

और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टान्त दे ३३ देकर उन की समझ के अनुसार वचन सुनाता था । और ३४ बिना दृष्टान्त उन से कुछ न कहता था पर एकान्त में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था ॥

उसी दिन जब सांभ हुई तो उस ने उन से कहा ३५ कि आओ हम पार चलें । सो वे भीड़ को छोड़कर जैसा ३६ वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और और नाव भी साथ थीं । और बड़ी आंधी आई और लहरें नाव ३७ पर यहां तक लगीं कि वह अब भरी जाती थी । और वह ३८ आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था और उन्होंने उसे जगाकर उस से कहा हे गुरु क्या तुम्हें चिन्ता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं । तब उस ने उठकर आंधी ३९ को डांटा और पानी से कहा चुप रह थम जा और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया । और उन से कहा ४० क्यों डरते हो क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं । और वे ४१ बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उस की आज्ञा मानते हैं ॥

५. और वे भील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे । और उस के नाव २ से उतरते ही एक मनुष्य जिस में अशुद्ध आत्मा था कब्रों से निकल कर उसे मिला । वह कब्रों में रहता था ३ और कोई उसे सांकलों से भी न बान्ध सकता था । क्योंकि वह बार बार वेड़ियों और सांकलों से बान्धा ४ गया था पर उस ने सांकलों को तोड़ दिया और वेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिये थे और कोई उसे बश में न कर सकता था । वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों ५ में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से काटता था । वह ६ यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया । और ऊँचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम-प्रधान ७ परमेश्वर के पुत्र मुझे तुझ से क्या काम । मैं तुम्हें परमेश्वर की किरिया देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे । क्योंकि ८ उस ने उस से कहा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल आ । उस ने उम से पूछा तेरा क्या नाम है उस ने उस ९ से कहा मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं । और १० उम ने बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज । वहां पहाड़ पर सूअरों का बड़ा भुएड चर रहा ११ था । सो उन्होंने उस से विनती कर कहा कि हमें उन १२ सूअरों में भेज दे कि हम उन में पैठें । सो उस ने उन्हें १३ जाने दिया और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों में पैठे और भुएड जो कोई दो हजार का था कड़ाड़े पर से

(२) यू । लिगियोन अर्थात् ६००० सिपाहियों की सेना ।

१४ भपटकर भील में जा पड़ा और हूब मरा । और उन के चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में जा सुनाया  
 १५ और जो हुआ था लोग देखने आए । और यीशु के पास आकर वे उस को जिस में दुष्टात्मा थे अर्थात् जिस में सेना समाई थी कपड़े पहिने और सचेत बैठे देखकर  
 १६ डर गए । और देखनेवालों ने उस का जिस में दुष्टात्मा थे और मुअरों का सारा हाल उन को कह सुनाया ।  
 १७ और वे उस से बिनती करने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा । जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिस में पहले दुष्टात्मा थे उस से बिनती करने लगा कि मुझे  
 १९ अपने साथ रहने दे । पर उस ने नकारा और उस से कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया  
 २० करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं । वह जाकर दिकपुलिस में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब अचम्भा करते थे ॥  
 २१ जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उस के पास इकट्ठी हो गई और वह भील के किनारे  
 २२ था । और याईर नाम सभा के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उस के पांवों पर गिरा । और उस ने यह कहकर बहुत बिनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है । आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर  
 २४ जीती रहे । तब वह उस के साथ चला और बड़ी भीड़ उस के पीछे हो ली और लोग उस पर गिरे पड़ते थे ॥  
 २५ और एक स्त्री जिस को बारह बरस से लोहू बहने का रोग था, और जिस ने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल खर्च करने पर भी कुछ लाभ न देखा  
 २७ था पर और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उस के पीछे से आई और उस के वस्त्र को छुआ ।  
 २८ क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उस के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी । और तुरन्त उस का लोहू बहना बन्द हो गया और उस ने अपनी देह में जान लिया कि मैं  
 ३० उस पीड़ा से अच्छी हो गई । यीशु ने तुरन्त अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली और भीड़ में  
 ३१ पीछे फिर कर पूछा कि मेरा वस्त्र किस ने छूआ । उस के चेलां ने उस से कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहना है कि किस ने मुझे छूआ ।  
 ३२ तब उस ने उसे देखने के लिए जिस ने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की । तब वह स्त्री यह जान कर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती आई और उस के पांवों पर गिरकर उस से सारा हाल सच सच कह दिया ।  
 ३४ उस ने उस से कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है कुशल से जा और अपनी पीड़ा से बची रह ॥

वह यह कह ही रहा था कि सभा के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई अब गुरु को क्यो दुख देता है । जो बात वे कह रहे थे उस को यीशु ने अनसुनी करके सभा के सरदार से कहा मत डर केवल विश्वास रख । और उस ने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया । सभा के सरदार के घर पहुंचकर उस ने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा । उस ने भीतर जाकर उन से कहा क्यो धूम मचाते और रोते हो लड़की मरी नहीं पर सोती है । वे उस की हंसी करने लगे पर वह सब को निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया । और लड़की का हाथ पकड़ कर उस से कहा तलीता कूमी जिस का अर्थ यह है कि हे लड़की मैं तुझ से कहता हूं उठ । और लड़की तुरन्त उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह बारह बरस की थी । और वे बहुत चकित हो गए । फिर उस ने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए ॥

## ६. वहां से निकल कर वह अपने देश में आया और उस के चेले उस के पीछे

हो लिए । बिश्राम के दिन वह सभा में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इस को ये बातें कहां से आ गई और यह कौन सा ज्ञान है जो उस को दिया गया है और कैसे सामर्थ के काम के हाथों से होते हैं । यह क्या वही बड़ई नहीं जो मरयम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है और क्या उस की बहिनें यहां हमारे बीच में नहीं रहतीं । सो उन्हो ने उस के विषय ठोकर खाई । यीशु ने उन से कहा नबी अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता । और वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया ॥

और उस ने उन के अविश्वास से अचम्भा किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करना फिरा ॥

और वह बारहों को अपने पास बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया । और उस ने उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो न रोटी न भोली न पटुके में पैसे । पर जूतियां पहिनो और दो दो कुरते न पहिनो । और उस ने उन से कहा जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो जब तक वहां से बिदा न हो तब तक उसी



११ में ठहरे रहो । जिस जगह के लोग तुम्हें ग्रहण न करें  
 और तुम्हारी न सुनें वहां से चलते ही अपने तलबों  
 १२ की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो । सो उन्होंने  
 १३ ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ । और बहुतेरे  
 दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मल-  
 कर उन्हें चंगा किया ॥

१४ और हेरोदेस राजा ने उस की चर्चा सुनी क्योंकि  
 उस का नाम फैल गया था और कहा यूहन्ना बपतिसमा  
 देनेवाला मरे हुआ में से जी उठा है इसी लिये उस से  
 १५ ये सामर्थ्य के काम प्रगट होते हैं । और औरों ने कहा यह  
 एलियाह है पर औरों ने कहा नबी या नाबियों में से किसी  
 १६ एक के समान है । हेरोदेस ने यह सुनकर कहा जिस यूहन्ना  
 १७ का मैं ने सिर काटवाया था वही जी उठा है । क्योंकि  
 हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास  
 के कारण जिस से उस ने ब्याह किया था लोगों को मेजकर  
 १८ यूहन्ना को पकड़वाकर जेलखाने में डाल दिया था । इस-  
 लिये कि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था कि अपने भाई की  
 १९ पत्नी को रखना तुम्हें उचित नहीं । सो हेरोदियास उस से  
 बैर रखती और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले पर  
 २० बन न पड़ा । क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मों और पवित्र  
 पुरुष जानकर उस से डरता और उसे बचाए रखता था  
 और उस की सुनकर बहुत घबराता था पर सुनता खुशी  
 २१ से था । और ठीक अवसर उस दिन मिला जब हेरोदेस ने  
 अपने जन्म दिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और  
 २२ गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की । और उसी  
 हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को  
 और उस के साथ बैठनेवालों को खुश किया तब राजा ने  
 २३ लड़की से कहा जो चाहे मुझ से मांग मैं तुम्हें दूंगा । और  
 उस से किरिया खाई कि मेरे आधे राज्य तक जो कुछ तू  
 २४ मुझ से मांगेगी मैं तुम्हें दूंगा । उस ने बाहर जाकर अपनी  
 माता से पूछा मैं क्या मांगूं । वह बोली यूहन्ना बपतिसमा  
 २५ देनेवाले का सिर । वह तुरन्त जल्दी से राजा के पास भीतर  
 आई और उस से विनती की मैं चाहती हूं कि तू अभी  
 यूहन्ना बपतिसमा देनेवाले का सिर एक थाल में मुझें मंगवा  
 २६ दे । तब राजा बहुत उदास हुआ पर अपनी किरियाओं  
 और साथ बैठनेवालों के कारण उसे टालना न चाहा ।  
 २७ और राजा ने तुरन्त एक सिंहाही को आज्ञा देकर भेजा  
 २८ कि उस का सिर काट लाए । सो उस ने जेलखाने में  
 जाकर उस का सिर काटा और एक थाल में रखकर  
 लाया और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी मां  
 २९ को दिया । यह सुनकर उस के चेले आए और उस की  
 सौप को उठाकर कबर में रक्खा ॥

पेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्हां ३०  
 ने किया और सिखाया था सब उस को बता दिया । उस ३१  
 ने उन से कहा तुम आप अलग किसी जंगली जगह में  
 आकर थंडा विश्राम करो क्योंकि बहुत लोग आते जाते  
 थे और उन्हें खाने का अवसर भी न मिलता था । सो वे ३२  
 नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चने गए । और ३३  
 बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों  
 से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उन से पहिले जा  
 पहुंचे । उस ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर ३४  
 तरस खाया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिन का  
 रखवाला नहीं और वह उन्हें बहुत बाते सिखाने लगा ।  
 जब दिन बहुत ढल गया तो उस के चेले उस के पास ३५  
 आकर कहने लगे यह सुनसान जगह है और दिन बहुत  
 ढल गया है । उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और ३६  
 बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने का माल लें ।  
 उस ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो ।  
 उन्हां ने उस से कहा क्या हम जाकर दो सौ दीनार की ३७  
 रोटियां लें और उन्हें खिलाएं । उस ने उन से कहा जाकर ३८  
 देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं । उन्हां ने मालूम  
 करके कहा पांच और दो मछली भी । तब उस ने उन्हें ३९  
 आज्ञा दी कि सब को दूरी पास पर पांति पांति बैठा दो ।  
 वे सौ सौ और पचास पचास करके पांति पांति बैठ गए । ४०  
 और उस ने उन पांच रोटियों और दो मछलियों को लिया ४१  
 और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां  
 तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें  
 और वे दो मछलियां भी उन सब में बांट दीं । सो सब ४२  
 खाकर तृप्त हुए । और उन्हां ने टुकड़ों से बारह टोकरी ४३  
 भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी । जिन्हों ने ४४  
 रोटी खाई वे पांच हजार पुरुष थे ॥

तब उस ने तुरन्त अपने चेलों को बरबस नाव पर ४५  
 चढ़ाया कि वे उस से पहिले उस गर बैतसैदा चले जाएं  
 जब तक कि वह लोगों को विदा करे । और उन्हें विदा ४६  
 करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया । और जब सांभ हुई ४७  
 तो नाव भील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर  
 था । और जब उस ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं ४८  
 क्योंकि हवा उन के सामने थी तो रात के चौथे पहर के  
 निकट वह भील पर चलते हुए उन के पास आया और  
 उन से भागे निकल जाना चाहता था । पर उन्हां ने उसे ४९  
 भील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला  
 उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गये थे पर उस ने ५०

तुरन्त उन से बातें की और कहा, ढाढ़स बान्धो मैं हूँ डरो  
 ५१ मत । तब वह उन के पास नाव पर चढ़ा और हवा थम  
 ५२ गई और वे बहुत ही चकित हुए । क्योंकि वे उन रोटियों  
 के विषय न समझे पर उन के मन कठोर हो गए थे ॥  
 ५३ और वे पार उतर कर गङ्गसरत में पहुँचे और  
 ५४ लगान किया । जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरन्त  
 ५५ उस को पहचान कर, आस पास के सारे देश में दौड़े  
 और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ उस के  
 ५६ होने का समाचार पाया वहाँ ले जाने लगे । और जहाँ  
 कहीं वह गाँवों नगरों या खेड़ों में जाता था तो लोग  
 बीमारों को बाजारों में रखकर उस से बिनती करते थे  
 कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे और  
 जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे ॥

### ७. तब फ़रीसी और कई एक शास्त्री जो

यरूशलेम से आए थे उस के पास  
 २ इकट्ठे हुए । और उन्होंने ने उस के कई एक चेलों को  
 ३ अशुद्ध अर्थात् बिना हाथ धोए रोटि खाते देखा । क्योंकि  
 फ़रीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते  
 हैं और जब तक भली भाँति हाथ नहीं धो लेते तब  
 ४ तक नहीं खाते । और बाज़ार से आकर जब तक स्नान  
 न कर लेते तब तक नहीं खाते और बहुत सी और बातें  
 हैं जो उन के पास मानने के लिये पहुँचाई गई हैं जैसे  
 कटोरों और लोटों और तांबे के बरतनों को धोना ।  
 ५ मेा उन फ़रीसियों और शास्त्रियों ने उस से पूछा कि तेरे  
 चले क्यों पुरनियों की रीतों पर नहीं चलते पर बिना  
 ६ हाथ धोए रोटि खाते हैं । उस ने उन से कहा कि यशा-  
 याह ने तुम कपटियों के विषय ठीक नबूवत की जैसा  
 लिखा है कि ये लोग हाँठों से तो मेरा आदर करते हैं  
 ७ पर उन का मन मुझ से दूर रहता है । और ये व्यर्थ  
 मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को  
 ८ धर्मोपदेश करके सिखाते हैं । क्योंकि तुम परमेश्वर की  
 आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतों को मानते हो ।  
 ९ और उस ने उन से कहा तुम अपनी रीतों को मानने  
 के लिये परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते  
 १० हो । क्योंकि मूसा ने कहा अपने पिता और अपनी  
 माता का आदर कर और जो कोई पिता या माता को  
 ११ बुरा कहे वह मार डाला जाए । पर तुम कहते हो यदि  
 कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुम्हें  
 मुझ से लाभ पहुँच सकता था वह कुरबान अर्थात्  
 १२ संकल्प हो चुका, तो तुम उस को उस के पिता या उस

की माता के लिये और कुछ करने नहीं देते । सो तुम १३  
 अपनी रीतों से जिन्हें तुम ने ठहराया है परमेश्वर का  
 वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुतेरे काम करते  
 हो । और उस ने लोगों को अपने पास बुलाकर उन से १४  
 कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो । ऐसी तो कोई १५  
 वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे पर  
 जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं व ही उसे  
 अशुद्ध करती हैं । जब वह भीड़ के पास से घर में गया १७  
 तो उस के चेलों ने इस दृष्टान्त के विषय उस से  
 पूछा । उस ने उन से कहा क्या तुम भी ऐसे ना समझ १८  
 हो क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य  
 में समाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती । क्योंकि १९  
 वह उस के मन में नहीं पर पेट में जाती है और संडास  
 में निकल जाती है । यह कहकर उस ने सब भोजन  
 वस्तुओं को शुद्ध ठहराया । फिर उस ने कहा जो मनुष्य २०  
 में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है ।  
 क्योंकि भीतर से अर्थात् मनुष्य के मन से बुरी बुरी २१  
 चिन्ता व्यभिचार चोरी झूठ परस्त्रीगमन लांभ दुष्टता २२  
 छल लुचपन कुदाष्ट निन्दा अभिमान और मूर्खता  
 निकलती हैं । ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती और २३  
 मनुष्य को अशुद्ध करती हैं ॥

फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सैदा के देशों में २४  
 गया और किसी घर में गया और चाहता था कि कोई न  
 जानें पर वह छिप न सका । पर तुरन्त एक स्त्री जिस २५  
 की छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा था उस की चर्चा सुन  
 कर आई और उस के पावों पर गिरी । यह यूनानी और २६  
 सूर्याफ़िनीकी जाति की थी और उस ने उस से बिनती की  
 कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे । उस ने उस से २७  
 कहा पहिले लड़कों का तृप्त होने दे क्योंकि लड़कों की  
 रोटि लेकर कुत्तों के आग डालना अच्छा नहीं है । उस २८  
 ने उस को उत्तर दिया कि सच है प्रभु तौभी कुत्ते भी  
 मेज़ के नीचे बालकों की रोटि का चूर चार खा लेते हैं ।  
 उस ने उस से कहा इस बात के कारण चली जा २९  
 दुष्टात्मा तेरी बेटी से निकल गया है । सो उस ने अपने ३०  
 घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और  
 दुष्टात्मा निकल गया है ॥

फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर ३१  
 दिकपुलिस देश से होता हुआ गलील की भाल पर  
 पहुँचा । और लोगों ने एक बाँहरे को जो हकला भी था ३२  
 उस के पास लाकर उस से बिनती की कि अपना हाथ  
 इस पर रख । तब वह उस को भीड़ से अलग ले गया ३३  
 और अपनी उँगलियाँ उस के कानों में डाली और थूक

३४ कर उस की जीभ खुई । और स्वर्ग की ओर देखकर  
आह भरी और उस से कहा इफसह अर्थात् खुल जा ।  
३५ और उस के कान खुल गए और उस की जीभ की गांठ  
३६ भी खुल गई और वह साफ़ साफ़ बोलने लगा । तब  
उस ने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना पर जितना  
उस ने उन्हें चिताया उतना ही और प्रचार करने लगे ।  
३७ और वे बहुत ही चकित होकर कहने लगे उस ने सब  
कुछ अच्छा किया है वह बहिरों को सुनने और गूंगों को  
बोलने की शक्ति देता है ॥

## ८. उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ हुई

और उन के पास कुछ ग्याने को न  
था तो उस ने अपने चेलों को बुला कर उन से कहा ।  
२ मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह तीन दिन  
से बराबर मेरे साथ है और उन के पास कुछ खाने को  
३ नहीं । यदि मैं उन्हें भूखे घर भेज दू तो माग में थक  
कर रह जाएंगे क्योंकि इन में से कोई कोई दूर से आए  
४ हैं । उस के चेलों ने उस को उत्तर दिया कि यहां जंगल  
५ में इतनी रोटी कोई कहां से लाये कि ये तृप्त हों । उस ने  
उन से पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्होंने  
६ कहा सात । तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा  
दी और वे सात रोटियां लीं और धन्यवाद करके तोड़ीं  
और अपने चेलों को देता गया कि उन के आगे रखें  
७ और उन्होंने ने लोगों के आगे रख दीं । उन के पास थोड़ी  
सी छोटी मछलियां भी थीं और उस ने धन्यवाद करके  
८ उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा की । सो वे  
खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों के सात टोकरे  
९ भरकर उठाए । और लोग चार हज़ार के लगभग थे और  
१० उस ने उन को बिदा किया । और वह तुरन्त अपने चेलों  
के साथ नाव पर चढ़ कर दलमनूता देश में गया ॥  
११ और फ़रीसी निकल कर उस से पूछ पाछ करने  
लगे और उस के परखने के लिए उस से कोई आकाश  
१२ का चिन्ह मांगा । उस ने अपने आत्मा में आह मार कर  
कहा इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूँढ़ते हैं मैं तुम से  
सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों के कोई चिन्ह  
१३ न दिया जाएगा । और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर  
चढ़ा और पार चला गया ॥  
१४ और वे रांटी लेना भूल गए थे और नाव में उन  
१५ के पास एक ही रोटी थी । और उस ने उन्हें चिताया  
कि देखो फ़रीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर

से चौकस रहो । वे आपस में विचार करने और कहने १६  
लगे कि हमारे पास रोटी नहीं । यह जानकर यीशु ने १७  
उन से कहा तुम क्यों आपस में विचार करते हो कि  
हमारे पास रोटी नहीं क्या अब तक नहीं जानते और  
नहीं समझते क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया । क्या १८  
आंखें रखते नहीं देखते और कान रखते नहीं सुनते और  
तुम्हें स्मरण नहीं कि, जब मैं ने पांच हज़ार के लिए १९  
पांच रोटी तोड़ीं तो तुम ने टुकड़ों की कितनी टोकरी  
भरकर उठाईं उन्होंने उस से कहा बारह । और जब २०  
चार हज़ार के लिए सात रोटी तो तुम ने टुकड़ों के कितने  
टोकरे भरकर उठाए थे । उन्होंने उस से कहा सात ।  
उस ने उन से कहा क्या तुम अब तक नहीं समझते ॥ २१  
और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अन्धे को २२  
उस के पास लाए और उस से बिनती की कि उस को  
छुए । वह उस अन्धे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर २३  
ले गया और उस की आंखों पर धूक कर उस पर हाथ  
रखे और उस से पूछा क्या तू कुछ देखता है । उस ने २४  
आंखें उठा कर कहा मैं मनुष्यों को देखता हूँ क्योंकि वे  
मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़ । तब उस ने २५  
फिर उस की आंखों पर हाथ रखे और उस ने ध्यान से  
देखा और अच्छा हो गया और सब कुछ साफ़ साफ़  
देखने लगा । और उस ने उस से यह कह कर घर भेजा २६  
कि इस गांव के भीतर पांव न रखना ॥  
यीशु और उस के चले कैसरिया फिलिप्पी के गांवों २७  
में चले गए तो मार्ग में उस ने अपने चेलों से पूछा कि  
लोग मुझे क्या कहते हैं । उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना २८  
वर्पातसमा देनेवाला पर कोई कोई एलियाह और कोई  
कोई नवियों में से एक भी कहते हैं । उस ने उन से पूछा २९  
फिर तुम मुझे क्या कहते हो । पतरस ने उस को उत्तर  
दिया तू मसीह है । तब उस ने उन्हें चिताकर कहा कि ३०  
मेरे विषय यह किसी से न कहना । और वह उन्हें ३१  
सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि  
वह बहुत दुख उठाए और पुरनिए और महायाजक और  
शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीन  
दिन के पीछे जी उठे । उस ने यह बात साफ़ साफ़ कही ।  
इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उस को भिड़कने ३२  
लगा । उस ने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर ३३  
पतरस को भिड़क कर कहा कि हे शैतान मेरे सामने से  
दूर हो क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों  
की बातों पर मन लगाता है । उस ने भीड़ को अपने ३४  
चेलों समेत पास बुलाकर उन से कहा जो कोई मेरे पीछे  
आना चाहे वह अपने आपे को नकारे और अपना क्रुस

३५ उठाकर मेरे पीछे हो ले । क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा ।  
 ३६ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की  
 ३७ हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा । या मनुष्य अपने  
 ३८ प्राण के बदले क्या देगा । जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति<sup>१</sup> के बीच मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उस से भी

६. लजाएगा । और उस ने उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उन में से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे ॥

२ छुः दिन के पीछे यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ लिया और एकान्त में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उन के सामने उस का रूप बदल गया ।  
 ३ और उस का वस्त्र चमकने लगा और यहां तक बहुत उजला हुआ कि पृथिवी पर कोई धोबी उजला नहीं कर सकता । और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे । इस पर पतरस ने यीशु से कहा हे रब्बी हमारा यहां रहना अच्छा है सो हम तीन मण्डप बनाए एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए । वह न जानता था  
 ७ कि क्या कहूँ क्योंकि वे बहुत डर गए थे । तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उस की सुनो । तब उन्होंने ने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा ॥  
 ९ पहाड़ से उतरते हुए उस ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुआओं में से जी न उठे तब  
 १० तक जो कुछ तुम ने देखा है वह किसी से न कहना । वे यह बात अपने जी में रखकर आपस में पूछ पाछ करने लगे कि मरे हुआओं में से जी उठना क्या है । और उन्होंने ने उस से पूछा शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहिले आना अवश्य है । उस ने उन्हें उत्तर दिया कि एलिय्याह सचमुच पहिले आकर सब कुछ सुधारेगा । फिर मनुष्य के पुत्र के विषय यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा । पर मैं तुम से कहता हूँ कि एलिय्याह तो आ चुका और जैसा

(१) यू० । पीढ़ी ।

उस के विषय लिखा है उन्होंने ने जो कुछ चाहा उस के साथ किया ॥

और जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि १४ उन के चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उन के साथ विवाद कर रहे हैं । और उसे देखते ही सब चकित १५ हो गए और उस की ओर दौड़कर उसे नमस्कार करने लगे । उस ने उन से पूछा तुम इन से क्या पूछ पाछ कर रहे हो । भीड़ में से एक ने उत्तर दिया कि हे गुरु मैं १७ अपने पुत्र को जिस में गंगा आत्मा समाया है तेरे पास लाया था । जहां कहीं वह उसे पकड़ता वहीं पटक देता १८ है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीमता और सूखा जाता है और मैं ने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दें परन्तु उन से न हो सका । यह सुन उस ने १९ उन से उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगो<sup>२</sup> मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहंगा । उसे मेरे पास लाओ । तब वे उसे उस के पास ले आए २० और जब उस ने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरन्त उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लोटने लगा । उस ने उस के पिता से पूछा इस का यह २१ हाल कब से है । उस ने कहा वचन से । उस ने इसे २२ नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया पर यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर । यीशु ने उस से कहा यदि तू कर २३ सकता है यह क्या बात है । विश्वास करनेवाले के लिए २४ सब कुछ हो सकता है । बालक के पिता ने तुरन्त गिड़-गिड़ाकर कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे अविश्वास का उपाय कर । जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ २५ लगा रहे हैं तो उस ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गुरु और बहिर आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उस में से निकल आ और उस में फिर कभी न पैठ । तब २६ वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आया और बालक मरा हुआ सा हो गया यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे वह मर गया । पर यीशु ने उस का हाथ पकड़ के २७ उसे उठाया और वह खड़ा हो गया । जब वह घर में २८ आया तो उस के चेलों ने एकान्त में उससे पूछा हम उसे क्यों न निकाल सके । उस ने उन से कहा कि यह जाति २९ बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती ॥

फिर वे वहां से चल निकले और गलील हांकर जा ३० रहे थे और वह न चाहता था कि कोई जाने । क्योंकि ३१ वह अपने चेलों को उपदेश देता और उन से कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा

(२) यू० । पीढ़ी ।

- और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के तीन दिन  
३२ पीछे जी उठेगा । पर यह बात उन की समझ में न आई  
और वे उस से पूछने से डरते थे ॥
- ३३ फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उस  
ने उन से पूछा रास्ते में तुम किस बात का विवाद करते  
३४ थे । वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह  
३५ वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है । तब  
उस ने बैठकर बारहों को बुलाया और उन से कहा यदि  
कोई बड़ा होना चाहे तो सब से छोटा और सब का सेवक  
३६ बने । और उस ने एक बालक को लेकर उन के बीच में  
३७ खड़ा किया और उसे गोद में ले उन से कहा । जो कोई  
मेरे नाम से ऐसे बालकों में से एक को ग्रहण करता है वह  
मुझे ग्रहण करता है और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह  
मुझे नहीं बरन मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता है ॥
- ३८ तब यहूजा ने उस से कहा हे गुरु हम ने एक  
मनुष्य को तरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा  
और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे  
३९ नहीं हो लेता था । यीशु ने कहा उस को मत मना करो  
क्योंकि ऐसा कोई नहीं जा मेरे नाम से सामर्थ्य का काम  
४० करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके । इस लिये कि जो  
४१ हमारे विरोध में नहीं वह हमारी और है । जो कोई एक  
कटोरा पानी तुम्हें इसलिये पिलाए कि तुम मसीह के  
हो मैं तुम से सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी  
४२ रीति से न खोएगा । पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ  
पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए उस क  
लिए भला हांता कि एक बड़ी चक्की का पाट उस क गले  
में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए ।  
४३ यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल  
दुष्टा होकर जीवन में प्रवेश करना तरे लिए इस से भला  
है कि दो हाथ रहते नरक के बीच उस आग में डाला  
४४ जाए जो कभी बुझने की नहीं । और यदि तेरा पांव तुझे  
४५ ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल । लंगड़ा होकर जीवन  
में प्रवेश करना तरे लिए इस से भला है कि दो पांव रहते  
४६ नरक में डाला जाए । और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर  
खिलाए तो उसे निकाल डाल । काना होकर परमेश्वर के  
राज में प्रवेश करना तरे लिए इस से भला है कि दो आंख  
४७ रहते नरक में डाला जाए । जहां उन का कीड़ा नहीं मरता  
४८ और आग नहीं बुझती । क्योंकि हर एक जन आग से  
४९ नमकीन किया जायगा । नमक अच्छा है पर यदि नमक  
की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादिष्ट

(१) यू० । इस नाम से ।

करोगे । अपने में नमक रक्खो और आपस में मेल  
मिलाप से रहे ॥

१०. फिर वह वहां से उठ कर यहूदिया के  
सिवानों में और यरदन के पार

आया और भीड़ उस के पास फिर इकट्ठी हो गई और  
वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा ।  
तब फरीसियों ने उस के पास आकर उस की परीक्षा करने  
को उस से पूछा क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी  
को त्यागे । उस ने उन को उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें  
क्या आज्ञा दी है । उन्होंने कहा मूसा ने त्यागपत्र लिखने  
और त्यागने दिया । यीशु ने उन से कहा कि तुम्हारे मन  
की कठोरता के कारण उस ने तुम्हारे लिए यह आज्ञा  
लिखी । पर सृष्टि के आरम्भ से परमेश्वर ने नर और नारी  
करके उन को बनाया । इस कारण मनुष्य अपने माता  
पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे  
दोनों एक तन होंगे । सो वे अब दो नहीं पर एक तन हैं ।  
इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग  
न करे । और घर में चेलों ने इस के विषय उस से फिर  
पूछा । उस ने उन से कहा जो कोई अपनी पत्नी को  
त्यागकर दूसरी से ब्याह करे वह उस पहिली के विरोध में  
व्यभिचार करता है । और यदि स्त्री अपने पति को  
छोड़कर दूसरे में ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है ॥

फिर लोग बालकों को उस के पास लाने लगे कि वह  
उन पर हाथ रखे पर चेलों ने उन को डांटा । यीशु ने  
यह देख रिसियाकर उन से कहा बालकों को मेरे पास  
आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य  
ऐसे ही का है । मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई  
परमेश्वर के राज्य का बालक की नाई ग्रहण न करे वह  
उस में कभी प्रवेश करने न पाएगा । और उस ने  
उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उन्हें  
आशिष दी ॥

और जब वह निकल कर मार्ग में जाता था तो  
एक मनुष्य उस के पास दौड़ता हुआ आया और  
उस के आगे घुटने टेककर उस से पूछा, हे उत्तम गुरु  
अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ ।  
यीशु ने उस से कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है  
कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात् परमेश्वर । तू  
आज्ञाओं को तो जानता है खून न करना व्यभिचार  
न करना चोरी न करना भूठी गवाही न देना ठगाई न  
करना अपने पिता और अपनी माता का आदर करना ।  
उस ने उस से कहा हे गुरु इन सब को मैं लड़कपन से

- २१ मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि कर उस से प्रेम किया और उस से कहा तुझ में एक बात का घटी है। जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे २२ स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उस के चिहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था ॥
- २३ यीशु ने चारों ओर देख कर अपने चेलों से कहा धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा २४ कठिन है। चले उस की बातों से अर्चाम्भत हुए इस पर यीशु ने फिर उन को उत्तर दिया हे बालको जो धन पर भरोसा रखते हैं उन के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान् २५ के प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से निकल २६ जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में २७ कहने लगे तो किस का उद्धार हो सकता है। यीशु ने उन की ओर देखकर कहा मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता परन्तु परमेश्वर से हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से २८ सब कुछ हो सकता है। पतरस उस से कहने लगा कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। २९ यीशु ने कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिस ने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहिनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को ३० छोड़ दिया हो और अब इस समय सौ गुना न पाए घरों और भाइयों और बहिनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनन्त ३१ जीवन। पर बहुतेरे जो पहिले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहिले होंगे ॥
- ३२ और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उन के आगे आगे चल रहा था और वे अर्चाम्भत हुए और उस पीछे चलते हुए डरते थे और वह फिर बारहों को लेकर उन से वे बातें कहने लगा जो उस पर आने- ३३ वाली थीं। कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़- ३४ वाया जाएगा और वे उस को घात के योग्य ठहराएंगे और अन्यजातियों के हाथ सौंपेंगे। और वे उस को ठट्टों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे काड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और तीन दिन के पीछे वह जी उठेगा ॥
- ३५ तब ज़बदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उस के पास आकर कहा हे गुरु हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझ ३६ से मांगें वही तू हमारे लिए करे। उस ने उन से कहा ३७ तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उन्होंने उस से कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से

एक तेरे दहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उन ३८ से कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो और जो बपतिसमा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो। उन्होंने उस से कहा हम ३९ से हो सकता है, यीशु ने उन से कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पिओगे और जो बपतिसमा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। पर जिन के लिए तैयार किया गया है उन्हें ४० छोड़ और किसी को अपने दहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। यह सुन कर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। और यीशु ने उन को पास बुला कर ४१ उन से कहा तुम जानते हो कि जो अन्यजातियों के ४२ हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उन में जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम ४३ में ऐसा नहीं है पर जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। और जो कोई तुम में प्रधान होना ४४ चाहे वह सब का दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इस- ४५ लिये नहीं आया कि उस की सेवा टहल की जाय पर इस- लिये आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे ॥

और वे यरीहो में आए और जब वह और उस के ४६ चले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बरतमाई एक अन्धा भिग्वारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है ४७ पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद के सन्तान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे ४८ पर वह और भी पुकारने लगा हे दाऊद के सन्तान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहरकर कहा उसे बुलाओ ४९ और लोगों ने उस अन्धे को बुलाकर उस से कहा दाऊद बान्ध उठ वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक- ५० कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ५१ ने उस से कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं अन्धे ने उस से कहा, हे रब्बी मैं देखने लगूं। यीशु ने ५२ उस से कहा चला जा तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह तुरन्त देखने लगा और मार्ग में उस के पीछे हो लिया ॥

११. जब वे यरूशलेम के निकट जैत्रन पहाड़ पर बैतफगे और बैतानियाह के पास आए तो उस ने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा कि, अपने सामने के गांव में जाओ और उस में पहुंचते २ ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा

(१) या। पर अपने दहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं पर जिन के लिए तैयार किया गया है उन्हें के लिए है।

- ३ बन्धा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल लाओ । यदि तुम से कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इस ४ का प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे लौटा देगा । उन्होंने ने जाकर उस बन्धे को बाहर द्वार के पास चौक में बन्धा ५ हुआ पाया और खोलने लगे । और उन में से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे कि बन्धे को क्यों खोलते ६ हो । उन्होंने ने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन से कह ७ दिया तब उन्होंने ने उन्हें जाने दिया । और उन्होंने ने बन्धे को यीशु के पाम लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और ८ वह उस पर बैठ गया । और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काटकर ९ फैला दीं । और जो उस के आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है । हमारे पिता दाऊद का आनेवाला राज्य धन्य है आकाश<sup>१</sup> में होशाना ॥
- ११ और वह यरूशलेम पहुंचकर मन्दिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बैत-निय्याह गया क्योंकि सांभ हो गई थी ॥
- १२ दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकलते थे तो १३ उस को भूख लगी । और वह दूर से अंजीर का एक हग पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उस में कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न १४ था । इस पर उस ने उम से कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए । और उस के चेले सुन रहे थे ॥
- १५ वे यरूशलेम में आए और वह मन्दिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्गियों के पीड़े और कबूतर के बेचनेवालों की १६ चौकियां उलट दीं । और मन्दिर में से होकर किसी को १७ बरतन लेकर आने जाने न दिया । और उपदेश करके उन से कहा क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा । पर तुम ने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है । यह सुन महायाजक और शास्त्री उस के नाश करने का अवसर ढूंढने लगे क्योंकि उस से डरते थे इसलिये कि सब लोग उम के उपदेश से चकित होते थे ॥
- १९ और सांभ होते ही वह नगर से बाहर जाया २० करता था । भार के जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने ने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा । २१ पतरस को वह बात स्मरण आई और उस ने उस से कहा हे रब्बी देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तू ने खाप

दिया था सूख गया । यीशु ने उस को उत्तर दिया कि २२ परमेश्वर पर विश्वास रखो । मैं तुम से सच कहता हूं २३ जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में सन्देह न करे बरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उस के लिए वही होगा । इसलिये मैं तुम से कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना २४ करके मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा । और जब तुम खड़े हुए प्रार्थना २५ करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर कुछ विरोध हो तो क्षमा करो इसलिये कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे ॥

वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मन्दिर २७ में फिर रहा था, तो महायाजक और शास्त्री और पुरनिए उस के पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार २८ से करता है और यह अधिकार तुम्हें किस ने दिया है कि ये काम करे । यीशु ने उन से कहा कि मैं भी तुम से २९ एक बात पूछता हूं मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं । यूहन्ना का ३० बपतिसमा क्या स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था मुझे उत्तर दो । तब वे आपस में विवाद करने लगे ३१ कि यदि हम कहे स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यों न की । पर यदि हम कहे मनुष्यों ३२ की ओर से उन्हें लोगों का डर था क्योंकि सब जानते थे कि यूहन्ना सचमुच नहीं था । सो उन्होंने ने यीशु को ३३ उत्तर दिया कि हम नहीं जानते । यीशु ने उन से कहा मैं भी तुम को नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं ॥

१२. फिर वह दृष्टान्तों में उन से बातें करने लगा । किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उस के चारों ओर बाड़ा बान्धा और रस का कुंड खोदा और गुम्मत बनाया और किसानों को उस का ठीका देकर परदेश चला गया । समय पर २ उम ने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले । पर उन्होंने ने ३ उसे पकड़ कर पीटा और लूँछे हाथ लौटा दिया । फिर ४ उम ने एक और दास को उन के पास भेजा, और उन्होंने ने उस का सिर फोड़ उस का अपमान किया । फिर उस ५ ने एक और को भेजा और उन्होंने ने उसे मार डाला और बहुत औरों को भेजा उन में से उन्होंने ने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला । अब एक ही रह गया था ६ जो उस का प्रिय पुत्र था अन्त में उस ने उसे भी उन के पास यह सोच कर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे ।

(१) यू० । ऊंचे से ऊंचे स्थान में ।

- ७ पर उन किसानों ने आपस में कहा यह तो बारिस है  
आओ हम उसे मार डालें तब मीरास हमारी होगी ।  
८ और उन्होंने ने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की  
९ बारी के बाहर फेंक दिया । इसलिये दाख की बारी का  
स्वामी क्या करेगा । वह आकर उन किसानों के नाश  
१० करेगा और दाख की बारी औरों के हाथ देगा । क्या तुम  
ने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर  
को राजों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा  
११ हो गया । यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में  
१२ अद्भुत है । तब उन्होंने ने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि  
समझ गए थे कि उस ने हमारे विरोध में यह दृष्टान्त  
कहा है पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए ॥  
१३ तब उन्होंने ने उसे बातों में फसाने के लिए कई एक  
१४ फरीसियों और हेरोदियों को उस के पास भेजा । और  
उन्होंने ने आकर उस से कहा हे गुरु हम जानते हैं कि तू  
सच्चा है और किसी की परवा नहीं करता क्योंकि तू मनुष्यों  
का मुँह देख कर बातें नहीं करता परन्तु परमेश्वर का  
१५ मार्ग सच्चाई में बताता है । क्या कैसर को कर देना  
उचित है कि नहीं । हम दें या न दें । उस ने उन का  
कपट जानकर उन से कहा भुक्के क्यों परखते हो एक  
१६ दीनार<sup>१</sup> मेरे पास लाओ कि मैं देखूँ । वे लाए और उस  
ने उन से कहा वह मूर्ति और नाम किस का है उन्होंने ने  
१७ कहा कैसर का । यीशु ने उन से कहा जो कैसर का  
है वह कैसर का और जो परमेश्वर का है परमेश्वर का  
दो । तब वे उस से बहुत अचम्भा करने लगे ॥  
१८ सद्गुरु ने भी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी  
उठना है ही नहीं उस के पास आए और उस से पूछा  
१९ कि, हे गुरु मूसा ने हमारे लिए लिखा कि यदि किसी  
का भाई बिना सन्तान मर जाए और उस की पत्नी रह  
जाए तो उस का भाई उस की पत्नी को ब्याह ले और  
२० अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे । सात भाई थे ।  
पहिला भाई ब्याह करके बिना सन्तान मर गया ।  
२१ तब दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया और बिना  
२२ सन्तान मर गया और वैसे ही तीसरे ने भी । और  
सातों से सन्तान न हुआ । सब के पीछे वह स्त्री भी  
२३ मर गई । सो जी उठने पर वह उन में से किस की पत्नी  
२४ होगी क्योंकि वह सातों की पत्नी हुई थी । यीशु ने उन  
से कहा क्या तुम इस कारण भूल में न पड़े हो कि  
तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते ।  
२५ क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो उन में ब्याह

शादी न होगी पर स्वर्ग में के दूतों की नाई होंगे । मरे हुओं २६  
के जी उठने के विषय क्या तुम ने मूसा की पुस्तक में भाड़ी  
की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उस से कहा मैं  
इब्राहीम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और  
याकूब का परमेश्वर हूँ । परमेश्वर मरे हुओं का नहीं बरन २७  
जीवतों का परमेश्वर है सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो ॥

शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें पूछ पूछ करते २८  
सुना और यह जानकर कि उस ने उन्हें अच्छी रीति से  
उत्तर दिया उस से पूछा सब से मुख्य आज्ञा कौन है ।  
यीशु ने उसे उत्तर दिया सब आज्ञाओं में से यह मुख्य २९  
है कि हे इस्राईल सुन प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु  
है । और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे ३०  
मन से और अपने सारे जीव से और अपनी सारी  
बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना । और ३१  
दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान  
प्रेम रखना इस से बड़ी और कोई आज्ञा नहीं ।  
शास्त्री ने उस से कहा हे गुरु बहुत ठीक तू ने सब ३२  
कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं ।  
और उस में सारे मन और सारी बुद्धि और सारे जीव और ३३  
सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने  
समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है ।  
जब यीशु ने देखा कि उस ने समझ से उत्तर दिया तो ३४  
उस से कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं । और  
किसी को फिर उस से कुछ पूछने का साहस न हुआ ॥

फिर यीशु ने मन्दिर में उपदेश करते हुए कहा शास्त्री ३५  
क्योंकर कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है । दाऊद ३६  
ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा कि प्रभु ने मेरे  
प्रभु से कहा मेरे दहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों  
को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूँ । दाऊद तो आप ही ३७  
उसे प्रभु कहता है फिर वह उस का पुत्र कहां से ठहरा ।  
भाई के लोग उस की आनन्द से सुनते थे ॥

उस ने अपने उपदेश में उन से कहा शास्त्रियों से ३८  
चाँकस रही जो लम्बे वस्त्र पहिने हुए फिरना, और बाजारों ३९  
में नमस्कार और सभाओं में मुख्य मुख्य आसन और  
जेयनारों में मुख्य मुख्य जगहें भी चाहते हैं । वे विधवाओं ४०  
के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक  
प्रार्थना करते रहते हैं । ये बहुत दण्ड पाएंगे ॥

और वह भण्डार के सामने बैठकर देख रहा था कि ४१  
लोग क्योंकर भण्डार में पैसे डालते थे और बहुत  
धनवानों ने बहुत कुछ डाला । और एक कंगाल विधवा ४२  
ने आकर दो दमड़ी जो एक अघेले के बराबर होता है  
डाला । तब उस ने अपने चेलों को पास बुला कर उन ४३

(१) देखो मत्ती १८:२८ ।



से कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि भगदर में डालने-  
वालों में से इस कंगाल विधवा ने सब से बढकर डाला  
४४ है। क्योंकि सब ने अपनी बड़ती में से कुछ कुछ डाला  
है पर इस ने अपनी घटी में से जो कुछ उस का था  
अर्थात् अपनी सारी जीविका डाल दी है ॥

### १३. जब वह मन्दिर से निकल रहा था तो

उस के चेहों में से एक ने उस से  
कहा हे गुरु देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन  
२ है। यीशु ने उस से कहा क्या तुम ये बड़े बड़े भवन  
देखते हो। यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया  
न जाएगा ॥

३ जब वह जैतून के पहाड़ पर मन्दिर के सामने बैठा  
था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अन्द्रियास  
४ ने अलग जाकर उस से पूछा कि, हम से कह ये बातें  
कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस  
५ समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु उन से कहने लगा  
६ चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम  
से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे।  
७ जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न  
धबराना क्योंकि इन का होना अवश्य है पर उस समय  
८ अन्त न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर  
राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह भुईंढोल होंगे और  
अकाल पड़ेंगे यह तो पीड़ाओं का आरम्भ होगा ॥

९ अपने विषय चौकस रहो क्योंकि लोग तुम्हें  
महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे  
और मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए  
१० जाओगे कि उन के सामने गवाही दो। पर अवश्य है  
कि पहिले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए।  
११ जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहिले से चिन्ता न  
करना कि हम क्या कहेंगे पर जो कुछ तुम्हें उस घड़ी  
बताया जाए वही कहना क्योंकि बोलनेवाले तुम नहीं हो  
१२ पर पवित्र आत्मा। और भाई भाई को और पिता पुत्र  
को घात के लिए सौंपेंगे और लड़केवाले माता पिता के  
१३ विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के  
कारण सब लोग तुम मे रैर करेंगे पर जो अन्त तक  
धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा ॥

१४ सो जब तुम उस उजाड़नेवाली घिनित वस्तु को  
जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो (जो पड़े वह समझे)  
१५ जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो  
काठे पर ही वह अपने घर से कुछ लेने को न नीचे  
१६ उतरे और न भीतर जाए। और जो खेत में हो वह अपना

कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती १७  
और दूध पिलाती होंगी उन के लिए हाय हाय। और १८  
प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में न हो। क्योंकि वे दिन १९  
ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरम्भ से जो परमेश्वर  
ने सृजी अब तक न हुए और न कभी होंगे। और २०  
यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी  
न बचता पर उन चुने हुआओं के कारण जिन को उस  
ने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि २१  
कोई तुम से कहे देखो मसीह यहां या देखो वहां है तो  
प्रतीति न करना। क्योंकि भूठे मसीह और भूठे नबी २२  
उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे  
कि यदि हो सके तो चुने हुआओं को भी भरमा दें। पर २३  
तुम चौकस रहो। देखो मैं ने तुम्हें सब बातें पहिले ही से  
कह दी है ॥

उन दिनों में उस क्लेश के पीछे सूरज अन्धेरा हो २४  
जाएगा और चांद प्रकाश न देगा। आकाश से तारे २५  
गिरेंगे और आकाश में की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब २६  
लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के  
साथ बादलों में आते देखेंगे। और तब वह अपने दूतों २७  
को भेजेगा और पृथिवी के इस छोर से आकाश की उस  
छोर तक चारों दिशा से चुने हुआओं को इकट्ठे करेगा ॥

अंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त सीखो। जब उस की २८  
डाली कामल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो  
तुम जान लेते हो कि धूप काल निकट है। इसी रीति २९  
से जब तुम ये बातें होते देखो तो जान लो कि वह निकट  
है वरन द्वार ही पर है। मैं तुम से सच कहता हूँ कि ३०  
जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक यह लोग जाते  
न रहेंगे। आकाश और पृथिवी टल जाएंगे पर मेरी ३१  
बातें कभी न टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय ३२  
कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र पर केवल  
पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम ३३  
नहीं जानते वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य ३४  
का सा हाल है जो परदेश जाने समय अपना घर छोड़  
जाए और अपने दासों को आधिकार दे और हर एक को  
उस का काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की  
आज्ञा दे। इसलिये जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते ३५  
घर का स्वामी कब आएगा सांभू के या आधी रात को  
या मुर्ग के बांग के समय या भोर को। ऐसा न हो कि ३६  
वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुम से ३७  
कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो ॥

(१) यून। यह पीढ़ी जाती न रहेगी।

१४. दो दिन के पीछे फ़सह और अश्व-  
मीरी रोटी का पर्व होनेवाला  
था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे  
२ कि उसे क्योंकिर छुल से पकड़ के मार डालें । पर कहते  
थे पर्व के दिन नहीं न हो कि लोगों में बलवा मचे ॥  
३ जब वह वैतनिय्याह में शमौन कोठी के घर  
भोजन करने बैठा था तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र  
में जटामांसी का बहुत माल का चांखा अतर लेकर  
आई और पात्र ताड़ कर उस के सिर पर डाला ।  
४ कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे इस  
५ अतर का क्यों सत्यानाश किया । क्योंकि यह अतर तो  
तीन सौ दानार<sup>१</sup> से अधिक दाम में बिककर कंगालों  
का बांटा जा सकता था और वे उस को भिड़कने लगे ।  
६ यीशु ने कहा उसे छोड़ दो उसे क्यों सताते हो । उस ने  
७ तो मेरे साथ भलाई की है । कंगाल तुम्हारे साथ सदा  
रहते हैं और तुम जब चाहो तब उन से भलाई कर  
८ सकते हो पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा । जो  
कुछ वह कर सकी उस ने किया । उस ने मेरे गाड़े जाने  
की तैयारी में पाहिल से मेरी देह पर अतर डाला है ।  
९ मैं तुम से सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं  
सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उस के इस काम  
का चर्चा भी उस के स्मरण में की जायगी ॥  
१० तब यहूदा इसकारियाती जो बारह में से एक था  
महायाजक के पास गया इसलिये कि उसने उन क हाथ  
११ पकड़वा दे । व यह सुनकर आनन्दित हुए और उस  
का रूपये देने को कहा और वह अबसर दूढ़ने लगा कि  
उसे क्योंकिर पकड़वा दे ॥  
१२ अश्वमीरी रोटी के पर्व के पहिले दिन जिस में वे  
फ़सह का मझा मारते थे उस के चेलों ने उस से पूछा,  
तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिये फ़सह खाने  
१३ की तैयारी करें । उस ने अपने चेलों में से दो को यह  
कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल  
का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा उस के पीछे हो  
१४ लेना । और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से  
कहना गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिस में मैं  
१५ अपने चेलों के साथ फ़सह खाऊँ कहां है । वह तुम्हें  
एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा  
१६ देगा वहां हमारे लिए तैयारी करो । सो चले  
निकलकर नगर में आए और जैसा उस ने उन से कहा  
था वैसा ही पाया और फ़सह तैयार किया ॥

(१) देखो मत्ती १८ : २८ ।

जब सांभ हुई तो वह बारहों के साथ आया । १७  
जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा मैं तुम १८  
से सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ  
भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा । व उदास होने १९  
और एक एक करके उस से कहने लगे क्या वह मैं हूँ ।  
उस ने उन से कहा वह बारहों में से एक है जो मेरे २०  
साथ थाली में हाथ डालता है । क्योंकि मनुष्य का पुत्र २१  
तो जैसा उस के विषय लिखा है जाता ही है परन्तु  
उस मनुष्य पर हाथ जिस के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़-  
वाया जाता है । यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो  
उस के लिए भला होता ॥

और जब वे खा रहे थे तो उस ने रोटी ली और २२  
आशिश भांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा लो  
यह मेरी देह है । और उस ने कटोरा ले धन्यवाद २३  
किया और उन्हें दिया और उन सब ने उस में से  
पिया । और उस ने उन से कहा यह बाचा का मेरा वह २४  
लोहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है । मैं तुम २५  
से सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक कभी  
न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊँ ॥ २६

फिर वे भजन गाकर ज़ेतून पहाड़ पर गए ॥

तब यीशु ने उन से कहा तुम सब ठाँकर खाओगे २७  
क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और मैं २८  
तित्तर बित्तर हो जाऊँगी । पर मैं अपने जी उठने के पीछे २९  
तुम से पाहिल गलील को जाऊंगा । पतरस ने उस से कहा  
यदि सब ठोकर खाएँ तो खाएँ पर मैं ठोकर नहीं खाऊँगा ।  
यीशु ने उस से कहा मैं तुम्हें से सच कहता हूँ कि आज ३०  
इसी रात मुर्ग के दो बार बांग देने से पाहिले तू तीन बार  
मुझ से मुकर जाएगा । पर उस ने और भी बल से कहा ३१  
यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हा तो भी तुम्हें से कभी न  
मुकरूंगा । ऐसा ही और सब ने भी कहा ॥

फिर वे गतसमने नाम एक जगह में आए और उस ३२  
ने अपने चेलों से कहा यहाँ बैठ रहो जब तक मैं प्रार्थना  
करूँ । और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को ३३  
अपने साथ ले गया । और बहुत चकित और व्याकुल  
होने लगा । और उन से कहा मेरा मन बहुत ३४  
उदास है यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ । तुम यहाँ ठहरो  
और जागते रहो । और वह थोड़ा आगे बढ़ा और ३५  
भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके  
तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए और कहा, हे ३६  
अब्बा, हे पिता तुम्हें से सब कुछ हा सकता है इस  
कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी जो मैं चाहता हूँ  
वह नहीं पर जो तू चाहता है वही हो । फिर वह ३७

आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा हे शमौन  
 तू सो रहा है क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका ।  
 ३८ जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न  
 ३९ पड़ो । आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है । और  
 वह फिर चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की ।  
 ४० और फिर आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उन की आँखें  
 नींद से भरी थीं और न जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें ।  
 ४१ फिर तीसरी बार आकर उन से कहा अब सोते रहो और  
 विश्राम करत रहो बस घड़ी आ पहुँची देखो मनुष्य का  
 ४२ पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है । उठो चलें  
 देखो मरा पकड़वानेवाला निकट आ पहुँचा है ॥  
 ४३ वह यह कह ही रहा था कि थूदा जो बारहों में  
 से था अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुर-  
 नियों की ओर से एक बड़ा भौंड़ तलवार और लाठिया  
 ४४ लिए हुए तुरन्त आ पहुँचा । और उस के पकड़वानेवाले  
 ने उन्हें यह पता दिया था कि जिस का मैं चूम रहा है  
 ४५ उसे पकड़ कर यतन से ले जाना । और वह आया और  
 तुरन्त उस के पास जाकर कहा हे रब्बी और उस को  
 ४६ बहुत चूमा । तब उन्होंने न उस पर हाथ डाल कर उसे  
 ४७ पकड़ लिया । उन में से जो पास खड़े थे एक ने तलवार  
 खींचकर महायाजक के पास पर चलाई और उस का  
 ४८ कान उड़ा दिया । यीशु ने उन से कहा क्या तुम डाकू  
 जानकर मर पकड़ने के लिए तलवार और लाठिया  
 ४९ लेकर निकले हो । मैं तो हर दिन मन्दिर में तुम्हारे साथ  
 रह कर उपदेश दिया करता था और तब तुम न मुझे न  
 पकड़ा । पर यह इसलिय हुआ कि पवित्र शास्त्र का वात  
 ५० पूरा हो । इस पर सब चले उसे छाड़ कर भाग गए ॥  
 ५१ और एक जवान अपना नगी देह पर चादर आड़े  
 हुए उस के पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा ।  
 ५२ पर वह चादर छाड़कर नंगा भाग गया ॥  
 ५३ फिर वे यीशु के महायाजक के पास ले गए और  
 सब महायाजक और पुरनिए और शास्त्री उस के यहां  
 ५४ इकट्ठे हो गए । पतरस दूर दूर उस के पीछे पीछे महा-  
 याजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादी के साथ  
 ५५ बैठ कर आग तापने लगा । महायाजक और सारी महा  
 सभा यीशु के मार डालने के लिए उस के विरोध में गवाही  
 ५६ की खोज में थे पर न पाई । क्योंकि बहुतरे उस के विरोध  
 में झूठी गवाही दे रहे थे पर उन की गवाही एक सी न  
 ५७ थी । तब कितनों ने उठ कर उस पर यह झूठी गवाही दी  
 ५८ कि, हम ने इसे यह कहते सुना कि मैं इस हाथ के  
 बनाये हुए मन्दिर को ढा दूंगा और तीन दिन में दूसरा  
 ५९ बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो । पर यों भी उन की

गवाही एक सी न निकली । तब महायाजक ने बीच में ६०  
 खड़े होकर यीशु से पूछा क्या तू कोई उत्तर नहीं देता ।  
 ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं । पर वह चुप ६१  
 रहा और कुछ उत्तर न दिया । महायाजक ने उस से  
 फिर पूछा क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है ।  
 यीशु ने कहा हां मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को ६२  
 सर्वशक्तिमान<sup>१</sup> की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के  
 बादलों के साथ आते देखोगे । तब महायाजक ने अपने ६३  
 वस्त्र फाड़कर कहा अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन  
 है । तुम ने यह निन्दा सुनी है तुम्हें क्या समझ पड़ता ६४  
 है । सब ने उसे बध के योग्य ठहराया । तब कोई ६५  
 कोई उस पर थूकने और उस का मुँह ढांकने और उसे  
 घूसे मारने और उस से कहने लगे कि नबूवत कर । और  
 प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे ॥

जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की ६६  
 लौंडियों में से एक आई । और पतरस को आग तापते ६७  
 देख उस पर टकटकी लगाकर कहने लगी तू भी तो  
 उस नासरी यीशु के साथ था । वह मुकर गया और ६८  
 कहा मैं न जानता और न समझता हूँ कि तू क्या कह  
 रहा है । फिर वह बाहर डेवड़ा में गया और मुर्ग ने  
 वांग दी । वह लौंडी उसे देख कर उन से जो पास खड़े ६९  
 थे फिर कहने लगी यह उन में से एक है । पर वह फिर ७०  
 मुकर गया और थोड़ी देर पीछे उन्होंने न जो पास खड़े थे  
 फिर पतरस से कहा सचमुच तू उन में से एक है क्योंकि  
 तू गलीली भी है । तब वह धक्कार देने और कारिया ७१  
 खाने लगा कि मैं उस मनुष्य का जिस का तुम चर्चा  
 करत हो नहीं जानता । तब तुरन्त दूसरी बार मुर्ग ने ७२  
 वांग दी और पतरस को वह बात जो यीशु ने उस से  
 कही थी स्मरण आई कि मुर्ग के दो बार वांग देने से  
 पहिले तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा और वह इस  
 पर साचकर रोने लगा ॥

## १५. और

भोर होते ही तुरन्त महाया-  
 जकों पुरनियों और शास्त्रियों  
 वरन सारी महासभा ने एका करके यीशु को बन्धवाया  
 और उसे ले जाकर पीलातुस के हाथ सांप दिया । और २  
 पीलातुस ने उस से पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है ।  
 उस ने उस को उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा  
 है । और महायाजक उस पर बहुत से दोष लगा रहे ३  
 थे । पीलातुस ने उस से फिर पूछा क्या तू कुछ उत्तर ४  
 नहीं देता देख थे तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते

५ हैं। फिर भी यीशु ने कुछ उत्तर न दिया यहां तक कि पीलातुस ने अचम्भा किया ॥  
 ६ और वह उस पर्व में किसी एक बन्धुए को जिसे  
 ७ वे चाहते थे उन के लिए छोड़ दिया करता था। बर-  
 ८ अब्बा नाम एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बन्धुआ  
 ९ था जिन्होंने बलवे में खून किया था। और भीड़ ऊपर  
 जाकर उस से बिनती करने लगी कि जैसा तू हमारे  
 १० लिए करता आया वैसा ही कर। पीलातुस ने उन को  
 उत्तर दिया क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहू-  
 ११ दियों के राजा को छोड़ दूं। क्योंकि वह जानता था कि  
 १२ महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। पर महा-  
 याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बर-अब्व्या ही को  
 १३ उन के लिए छोड़ दे। यह सुन पीलातुस ने उन से फिर  
 पूछा तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसे मैं  
 क्या करूं? वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा।  
 १४ पीलातुस ने उन से कहा क्यों उस ने क्या बुराई की है?  
 १५ पर वे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा। तब  
 पीलातुस ने भीड़ को खुश करने की इच्छा से बर-अब्व्या  
 को उन के लिए छोड़ दिया और यीशु को काड़े लगवा-  
 १६ कर सींग दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। और सिपाह  
 उसे किले के भीतर के आंगन में ले गये और सारा  
 १७ पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र  
 पहिनाया और कांटों का मुकुट गूथकर उस के सिर पर  
 १८ रक्खा। और उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के  
 १९ राजा सलाम। और वे उस के सिर पर सरकण्डे मारते  
 और उस पर थूकते और धुत्ने टेक कर उसे प्रणाम करते  
 २० रहे। और जब वे उस का ठट्ठा कर चुके तो उस पर से  
 बैजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहिनाए और तब  
 उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए ॥  
 २१ और सिकन्दर और रूफुस का पिता शमौन नाम  
 एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से  
 निकला उन्होंने न उसे बेगार में पकड़ा कि उस का क्रूस  
 २२ उठा ले चले। और वे उसे गुलगुता नाम जगह पर जिस  
 २३ का अर्थ खोपड़ी की जगह है उठा लाए। और उसे मुर  
 २४ मिला हुआ दाखरस देने लगे पर उस ने न लिया। तब  
 उन्होंने न उस को क्रूस पर चढ़ाया और उस के कपड़ों  
 पर चिट्टियां डालकर कि किस को क्या मिले उन्हें बांट  
 २५ लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने न उस को  
 २६ क्रूस पर चढ़ाया और उस का दोषपत्र लिखकर उस के  
 २७ ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा। और उन्होंने  
 न उस के साथ दंडा एक दहिने और एक बाएं क्रूसों  
 २९ पर चढ़ाये। और आने जानेवाले सिर हिला हिलाकर

और यह कहकर उस की निन्दा करते और यह कहते थे  
 कि वाह मन्दिर के दानेवाले और तीन दिन में बनाने-  
 वाले, क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा। ३०  
 इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ३१  
 ठट्ठे से कहते थे इस ने औरों को बचाया अपने को नहीं  
 बचा सकता। इस्राईल का राजा मसीह अब क्रूस पर से ३२  
 उतरे कि हम देखकर विश्वास करें। जो उस के साथ  
 क्रूसों पर चढ़ाए गये थे वे भी उस की निन्दा करते थे ॥  
 और दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा ३३  
 गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने ३४  
 बड़े शब्द से पुकारकर कहा इलौंई इलौंई लमा शबक-  
 तनी जिस का अर्थ यह है हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमे-  
 श्वर तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उन में ३५  
 से कितनों ने यह सुनकर कहा देखो वह एलिय्याह को  
 पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज का सिरके में ३६  
 डुबाया और सरकण्डे पर रखकर उसे चुसाया और  
 कहा रह जा देख कि एलिय्याह उसे उतारने आता है  
 कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण ३७  
 छोड़ा। और मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फट- ३८  
 कर दो टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उस के सामने खड़ा ३९  
 था जब उसे यू चिल्लाकर प्राण छोड़ते देखा तो कहा  
 सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां ४०  
 भी दूर से देख रही थीं उन में मरयम मगदलीनी और  
 छोटे याकूब की और योसेस की माता मरयम और  
 शलोमी थीं। जब वह गलील में था तो ये उस के पीछे ४१  
 हो लेतीं और उस की सेवाटहल करती थीं और और  
 भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो उस के साथ यरूशलेम में  
 आई थीं ॥

जब सांभ हो गई तो इसलिये कि तैयारी का दिन ४२  
 था जो विश्रामवार के एक दिन पहिले होता है,  
 अरिमातिया का यूसुफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री और ४३  
 आप भी परमेश्वर के राज्य की बात जोहता था वह  
 हियाव करके पीलातुस के पास गया और यीशु की लोथ  
 मांगी। पीलातुस ने अचम्भा किया कि वह ऐसे शीघ्र ४४  
 मर गया और सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उस  
 को मरे हुए कुछ देर हुई। सो जब सूबेदार के द्वारा हाल ४५  
 जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी। तब उस ने ४६  
 एक चादर मोल ली और लोथ को उतार कर उस  
 चादर में लपेटा और एक कबर में जो चटान में खुदी  
 हुई थी रक्खा और कबर के द्वार पर पत्थर लुढ़का  
 दिया। और मरयम मगदलीनी और योसेस की माता ४७  
 मरयम देख रही थीं कि वह कहां रक्खा गया है ॥

१६. जब विश्राम का दिन बीत गया तो मरयम मगदलीनी और याकूब की माता मरयम और शलामी ने सुगन्धित वस्तुएं २ मोल लीं कि आकर उस पर मलें। और अठवारे के पहिले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था ३ क्रबर पर आई। और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए क्रबर के द्वार पर से पत्थर कौन लुड़काएगा। ४ जब उन्होंने ने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुड़का ५ हुआ है और वह बहुत बड़ा था। और क्रबर के भीतर जाकर उन्होंने ने एक जवान को उजला पैराहन पहिने हुए दहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। ६ उस ने उन से कहा चकित मत हो। तुम यीशु नासरी के जो क्रूस पर चढ़ाया गया था दूँडती हो। वह जी उठा है यहां नहीं है देखो यही वह जगह है जहां उन्होंने उसे रक्खा था। पर तुम जाओ और उस के चेलां और पतरस से कहे कि वह तुम से पहिले गलील को जाएगा ८ जैसा उस ने तुम से कहा तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकल कर क्रबर से भाग गई क्योंकि उन्हें कपकपी और घबराहट ने दबा लिया था सो उन्होंने ने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थीं ॥
- १ अठवारे के पहिले दिन वह भोर होते ही जी उठ कर पहिले पहिल मरयम मगदलीनी के जिस में से उस १० ने सात दुष्टात्मा निकाले थे दिखाई दिया। उस ने जाकर उस के साथियों के जो शोक करते और रो रहे थे

समाचार दिया। और उन्होंने ने यह सुनकर कि वह ११ जाता है और उसे देखा है प्रतीति न की ॥

इस के पीछे वह दूसरे रूप में उन में से दो को जब १२ वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने ने भी १३ जाकर औरों को समाचार दिया पर उन्होंने ने उन की भी प्रतीति न की ॥

पीछे वह उन ग्यारहों को भी जब वे भोजन करने १४ बैठे थे दिखाई दिया और उन के आश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया क्योंकि जिन्होंने ने उस के जी उठने के पीछे उसे देखा था इन्होंने ने उन की प्रतीति न की थी। और उस ने उन से कहा तुम सारे १५ जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिसमा ले १६ उस का उद्धार होगा पर जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करनेवालों में वे चिन्ह १७ होंगे वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई १८ नई भाषा बोलेंगे सांगों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु पीएं तो उन की कुछ हानि न होगी वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चगे हो जाएंगे ॥

सो प्रभु यीशु उन से बातें करने के पीछे स्वर्ग पर १९ उठा लिया गया और परमेश्वर की दहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने ने निकल कर हर कहीं प्रचार किया और प्रभु २० उन के साथ साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन ॥

## लूका रचित सुसमाचार ।

१. इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास २ लिखने में हाथ लगाया है। जैसा कि उन्होंने ने जो पहिले ही से इन बातों के देखनेवाले और वचन के सेवक थे ३ हमें सौंपा। सो हे श्रीमान् थियुफिलुस मुझे अच्छा लगा कि सब बातों का हाल चाल आरम्भ से ठीक ठीक जांच ४ करके उन्हें तरे लिए सिलसिलेवार लिखूं, कि तू जान ले कि वे बातें जिन की तू ने शिक्षा पाई है कैसी पक्की हैं ॥
- ५ यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के

दल<sup>१</sup> में ज़करयाह नाम एक याजक था और उस की पत्नी हारून के वंश की थी जिस का नाम इलीशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और ६ प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलनेवाले थे। उन के कोई सन्तान न थी क्योंकि इलीशिबा ७ बांरू थी और वे दोनों बृद्धे थे ॥

जब वह अपने दल<sup>१</sup> की पारी पर परमेश्वर के ८ सामने याजक का काम करता था। तो याजकों की ९

(१) इतिहास २३:६—२३ का देखो ।

रीति के अनुसार उस के नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु  
 १० के मन्दिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के  
 समय लोगों की सारी मण्डली बाहर प्रार्थना कर रही  
 ११ थी, कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दहिनी  
 १२ ओर खड़ा हुआ उस को दिखाई दिया। और ज़करयाह  
 देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया।  
 १३ पर स्वर्गदूत ने उस से कहा है ज़करयाह भय न खा  
 क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी इली-  
 शिवा तेरे लिए पुत्र जनेगी और तू उस का नाम यूहन्ना  
 १४ रखना। और तुझे आनन्द और हर्ष होगा और बहुत  
 १५ लोग उस के जन्म के कारण आनन्दित होंगे। क्योंकि  
 वह प्रभु के साम्हने महान् होगा और दाख रस और मद  
 कभी न पीएगा और अपनी माता के पेट ही स पवित्र  
 १६ आत्मा से भरपूर हो जाएगा। और इसाईतियों में से  
 १७ बहुतेरों को उन के प्रभु परमेश्वर की ओर फेरगा। वह  
 एलियाह के आत्मा और सामर्थ में होकर उस के आगे  
 आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़केवालों की ओर फेर  
 दे और आज्ञा न माननेवालों को धर्मियों की समझ पर  
 लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे।  
 १८ ज़करयाह ने स्वर्गदूत से पूछा यह मैं कैसे जानूँ क्योंकि  
 १९ मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत  
 ने उस को उत्तर दिया कि मैं जिवरडेल हूँ जो परमेश्वर  
 के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझ से बातें करने और  
 २० तुझे यह सुसमाचार सुनाने भेजा गया हूँ। और देख  
 जिस दिन तक ये बातें पूरी न हों तब तक उस दिन तक तू  
 चुपचाप रहेगा और बोल न सकेगा इसलिये कि तू ने  
 मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न  
 २१ की। और लोग ज़करयाह की बात देखते और अचम्भा  
 २२ करते थे कि उसे मन्दिर में ऐसी देर क्यों लगी। जब  
 वह बाहर आया तो उन से बोल न सका सो वे जान  
 गए कि उस ने मन्दिर में कोई दर्शन पाया है और वह  
 २३ उन से सैन करता रहा और गुंगा रह गया। जब उस की  
 सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर गया ॥  
 २४ इन दिनों के पीछे उस की पत्नी इलीशिवा गर्भवती  
 हुई और पांच महीने तक अपने आप को यह कहके छिपाए  
 २५ रक्खा, कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु  
 ने इन दिनों में कृपादृष्टि कर मेरे लिए ऐसा किया है ॥  
 २६ छठे महीने परमेश्वर की ओर से जिवरडेल स्वर्गदूत  
 गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा  
 २७ गया, जिस की मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक  
 २८ पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरयम था। और  
 उस ने उस के पास भीतर आकर कहा आनन्द तुझ को

जिस पर अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे साथ है। वह उस २९  
 वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा  
 नमस्कार है। स्वर्गदूत ने उस से कहा है मरयम भय न ३०  
 कर क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और ३१  
 देख तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी तू उस का नाम  
 यीशु रखना। वह महान् होगा और परमप्रधान का पुत्र ३२  
 कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उस के पिता दाऊद का  
 सिंहासन उस को देगा। और वह याकूब के घराने पर सदा ३३  
 राज्य करेगा और उस के राज्य का अन्त न होगा। मरयम ३४  
 ने स्वर्गदूत से कहा यह क्योंकर होगा मैं तो पुरुष को जानती  
 ही नहीं। स्वर्गदूत ने उस को उत्तर दिया कि पवित्र ३५  
 आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ  
 पर छाया करेगी इसलिये वह पवित्र जो उत्पन्न होनेवाला  
 है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देव तेरी कुटुम्बिनी ३६  
 इलीशिवा के भी बुढ़ापे में पुत्र होनेवाला है यह उस का  
 जो बांभ कहलाती थी लूठा महीना है। क्योंकि जो वचन ३७  
 परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता।  
 मरयम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ मुझे तेरे वचन ३८  
 के अनुसार हो तब स्वर्गदूत उस के पास से चला गया ॥

उन दिनों में मरयम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश ३९  
 में यहूदा के एक नगर को गई। और ज़करयाह के घर ४०  
 में जाकर इलीशिवा को नमस्कार किया। ज्योंही ४१  
 इलीशिवा ने मरयम का नमस्कार सुना त्योंही बच्चा  
 उस के पेट में उछला और इलीशिवा पवित्र आत्मा से  
 भरपूर हो गई। और उस ने बड़े शब्द में पुकार के ४२  
 कहा, तू स्त्रियों में धन्य और तेरे पेट का फल धन्य है।  
 और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की ४३  
 माता मेरे पास आई। और देख ज्योंही तेरे नमस्कार ४४  
 का शब्द मेरे कानों में पड़ा त्योंही बच्चा मेरे पेट में  
 आनन्द से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिस ने ४५  
 विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उस से  
 कही गईं वे पूरी होंगी। तब मरयम ने कहा मेरा प्राण ४६  
 प्रभु की वड़ाई करता है। और मेरा आत्मा मेरे उद्धार ४७  
 करनेवाले परमेश्वर से आनन्दित हुआ। क्योंकि उस ने ४८  
 अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है इसलिये देखो  
 अब से सब समयों के लोग मुझे धन्य कहेंगे। क्योंकि ४९  
 उस शक्तिमान् ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और  
 उस का नाम पवित्र है। और उस का दया उन पर ५०  
 जो उस से डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती  
 है। उस ने अपना बाहुबल दिखाया और जो अपने ५१  
 आप को बड़ा समझते थे उन्हें तित्तर भित्तर किया।  
 उस ने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और ५२

५३ दीनों को ऊंचा किया । उस ने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छोड़े हाथ निकाल दिया । उस ने अपने सेवक इस्राईल को सम्भाल लिया । ५४ कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहीम और उस के वंश पर सदा रहेगी जैसा उस ने हमारे बाप दादों से कहा था । मरयम लगभग तीन महीने उस के साथ रहकर अपने घर लौट गई ॥

५७ तब इलीशिवा के जनने का समय पूरा हुआ और ५८ वह पुत्र जनी । उस के पड़ोसियों और कुटुम्बियों ने यह सुन कर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की उस के साथ ५९ आनन्द किया । और आठवें दिन वे बालक का खतना करने आए और उस का नाम उस के पिता के नाम पर ६० ज़करयाह रखने लगे । और उस की माता ने उत्तर दिया ६१ सो नहीं बरन उस का नाम यूहन्ना रक्खा जाए । और उन्होंने ने उस से कहा तेरे कुटुम्ब में किसी का यह नाम ६२ नहीं । तब उन्होंने ने उस के पिता से सैन किया कि तू ६३ उस का नाम क्या रखना चाहता है । और उस ने पाटी मंगाकर लिख दिया कि उस का नाम यूहन्ना है ६४ और सब ने अचम्भा किया । तब उस का मुंह और जीभ तुरन्त खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का ६५ धन्यवाद करने लगा । और उन के आस पास के सब रहनेवालों पर भय छा गया और इन सब बातों की चर्चा ६६ यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई । और सब सुननेवालों ने अपने अपने मन में बिचार कर कहा यह बालक कैसा होगा क्योंकि प्रभु का हाथ उस के साथ था ॥

६७ और उस का पिता ज़करयाह पवित्र आत्मा से ६८ भरपूर हो गया और नव्वत करने लगा कि प्रभु इस्राईल का परमेश्वर धन्य हो कि उस ने अपने लोगों पर ६९ दृष्टि कर उन का छुटकारा किया है । और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग ७० निकाला । जैसे उस ने अपने पवित्र नवियों के द्वारा जो ७१ जगत के आदि से होते आए हैं कहा कि, हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा ७२ उद्धार किया है । कि हमारे बाप दादों पर दया करके ७३ अपनी पवित्र बाचा स्मरण करे । अर्थात् वह किरिया जो ७४ उस ने हमारे पिता इब्राहीम से खाई थी कि वह हमें यह ७५ देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर, उस के सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर ७६ रहकर उस की सेवा करते रहें । और तू हे बालक परम प्रधान का नबी कहलाएगा क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उस के आगे आगे चलेगा, कि उस के लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उन के पापों की क्षमा

से प्राप्त होता है । यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी ७८ करुणा से होगा जिस के कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की ७९ छाया में बैठनेवालों को ज्योति दे और हमारे पावों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए ॥

और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवन्त ८० होता गया और इस्राईल पर प्रगट होने के दिन तक जंगलों में रहा ॥

२. उन दिनों में अँगूस्तुस कैसर की ओर से आशा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं । यह पहिली नाम लिखाई उस समय २ हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था । और सब ३ लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए । सो यूसुफ भी इसलिये कि वह दाऊद के घराने और वंश ४ का था गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया, कि अपनी मंगतर मरयम ५ के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए । उन के वहां ६ रहते हुए उस के जनने के दिन पूरे हुए । और वह अपना ७ पहिलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रक्खा क्योंकि उन के लिए सराय में जगह न थी ॥

और उस देश में कितने रखवाले थे जो रात को ८ मैदान में रहकर अपने भुएड का पहरा देते थे । और प्रभु का एक दूत उन के पास आ खड़ा हुआ ९ और प्रभु का तेज उन के चारों ओर चमका और वे बहुत डर गये । तब स्वर्गदूत ने उन से कहा मत १० डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनन्द का सुसमाचार मुनाता हूं जो सब लोगों के लिये होगा । कि आज ११ दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है । और इस का १२ तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे । तब एकाएक १३ उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते और यह कहते दिखाई दिया कि, अकाश १४ में परमेश्वर की महिमा और पृथिवी पर उन मनुष्यों में जिन से वह प्रसन्न है शान्ति हो ॥

जब स्वर्गदूत उन के पास से स्वर्ग को चले १५ गये तो रखवालों ने आपस में कहा आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें । और उन्होंने ने तुरन्त जाकर मरयम और १६ यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा । इन्हें १७ देखकर उन्होंने ने वह बात जो इस बालक के विषय उन से

(१) यू० । ऊंचे से ऊंचे स्थान में ।

- १८ कही गई थी प्रगट की । और सब सुननेवालों ने उन बातों से जो रखवालों ने उन से कहीं अचम्भा किया ।
- १९ पर मरयम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही । और रखवाले जैसा उन से कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए ॥
- २१ जय आठ दिन पूरे हुए और उस के खतने का समय आया तो उस का नाम यीशु रक्खा गया जो स्वर्ग दूत ने उस के पेट में आने से पहले कहा था ॥
- २२ और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उन के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं । (जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौटा प्रभु के लिए पवित्र २४ उहरेगा), और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के दो बच्चे ला कर बलिदान करें । और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राईल की शांति की बात जोहता था और पवित्र आत्मा २६ उस पर था । और पवित्र आत्मा से उस को चितावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न ले तब २७ तक मृत्यु को न देखेगा । और वह आत्मा के सिखाने से मन्दिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उस के लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें । तो उस ने उसे अपनी गोद में लिया २९ और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से बिदा ३० करता है । क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख ३१ लिया है । जिसे तू ने सब देशों के लोगों के सामने तैयार ३२ किया है । कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राईल की महिमा हो । और उस का पिता और उस की माता इन बातों से जो उस ३४ के विषय कही जाती थीं अचम्भा करते थे । तब शमौन ने उन को आशिष देकर उस की माता मरयम से कहा देव यह तो इस्राईल में बढ़तों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा एक चिन्ह होने के लिए उदरया गया है ३५ जिस के विराध में बातें की जाएगी—वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा—इस से बहुत हृदयों ३६ के विचार प्रगट होंगे । और अशेर के गोत्र में से हच्चाह नाम पनूपल की बेटी एक नबिया थी । वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद सात बरस अपने पति के

साथ रही थी । वह चौरासी बरस से विधवा थी और मन्दिर को न छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी । और वह उसी घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटारों की बात जोहते थे उस के विषय बातें करने लगी । और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ का चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को चले गए ॥

और बालक बढ़ता और बलवन्त होता और बुद्धि से भरपूर होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था ॥

उस के माता पिता बरस बरस प्रसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे । जब वह बारह बरस का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए । और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उस के माता पिता न जानते थे । वे यह समझकर कि वह और बेटोहियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुम्बियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे । पर जब न मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए । और तीन दिन के पीछे उन्हों ने उसे मन्दिर में उपदेशकों के बीच बैठे उन की सुनते और उन से प्रश्न करते हुए पाया । और जितने उस की सुन रहे थे वे सब उस की समझ और उस के उत्तरों से चकित थे । तब वे उसे देखकर चकित हुए और उस की माता ने उस से कहा, हे पुत्र तू ने हम से क्यों ऐसा व्यवहार किया देख तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे । उस ने उन से कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है । पर जो बात उस ने उन से कही उन्हीं ने न समझा । तब वह उन के साथ गया और नासरत में आया और उन के वंश में रहा और उस की माता ने ये सब बातें अपने मन में रक्खी ॥

और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया ॥

३. तिबेरियुस कैसर के राज्य के पंद्रहवें बरस में जब पुन्तियुस पीलानुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरॉदेस नाम चौथाई का इतूरया और त्रखोनीतिस में उस का भाई फिलिप्पुस



- २ और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे । और जब हन्ना और काइफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में ज़करयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुँचा । और वह यरदन के आस पास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के अपतिसमा का प्रचार करने लगा । जैसे यशायाह नबी के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने-वाले का शब्द ही रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो उस की सड़कें सीधी करो । हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊँचा नीचा है चौरस मार्ग बनेगा । और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा ॥
- ७ जो भीड़ की भीड़ उस से अपतिसमा लेने को निकल आती थी उन से वह कहता था हे सांन के बच्चो तुम्हें किस ने जता दिया कि आनेवाले क्रोध से भागो । मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहीम है क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिए सन्तान उत्पन्न कर सकता है । और अब ही कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है इसलिये जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में भँका जाता है । और लोगों ने उस से पूछा तो हम क्या करें । उस ने उन्हें उत्तर दिया कि जिस के पाम दो कुरते हों वह उस के साथ जिस के पास नहीं बाँट दे और जिस के पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे । और महमूल लेनेवाले भी अपतिसमा लेने आए और उस से पूछा कि हे गुरु हम क्या करें । उस ने उन से कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उस से अधिक न लेना । और सिपाहियों ने भी उस से यह पूछा हम क्या करें । उस ने उन से कहा किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपनी मजूरी पर सन्तोष करना ॥
- १५ जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह न होगा । तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर दे कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से अपतिसमा देता हूँ पर वह आता है जो मुझ से शक्तिमान् है मैं इस योग्य नहीं कि उस के जूतों का बंध खोलूँ वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से अपतिसमा देगा । उस का सूप उस के हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूँ को अपने खत्त में इकट्ठा

करेगा पर भूमी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा ॥

फिर वह बहुत और बातों का भी उपदेश करके लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा । पर उस ने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उस के भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय जो उस ने किए थे उलाहना दिया था । इसलिये हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को जेलखाने में डाल दिया ॥

जब सब लोगों ने अपतिसमा लिया और यीशु भी अपतिसमा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया । और पवित्र आत्मा देही रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है मैं तुझ से प्रसन्न हूँ ॥

जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो बरस तीस एक का था और (जैसा समझा जाता था) यूसुफ का पुत्र था । और वह एली का वह मत्तात का वह लेवी का वह मलकी का वह यन्ना का वह यूसुफ का, वह मत्तियाह का वह आमोस का वह नहूम का वह असल्याह का वह नोगह का, वह मात का वह मत्तियाह का वह शिमी का, वह येसेख का वह योदाह का वह यूहन्ना का वह रेसा का वह जरुब्बाविल का वह शाल-तियेल का वह नेरी का, वह मलकी का वह अही का वह केसाम का वह इलमोदाम का वह एर का, वह येशू का वह इलाजार का वह येरीम का वह मत्तात का वह लेवी का, वह शमोन का वह यहूदाह का वह यूसुफ का वह योनान का वह इलयाकीम का, वह मलेयाह का वह मिन्नाह का वह मत्ताता का वह नातान का वह दाऊद का, वह यिशी का वह ओवेद का वह बोअज़ का वह सलमोन का वह नहशोन का, वह अम्मिनादाब का वह अरनी का वह हिस्सोन का वह फिरिस का वह यहूदाह का, वह याकूब का वह इसहाक का वह इब्राहीम का वह तिरह का वह नाहोर का, वह सरूग का वह रऊ का वह फिलिग का वह एबिग का वह शिलह का, वह केनान का वह अरफक्षद का वह शेम का वह नूह का वह लिमिक का, वह मथूशिलह का वह इनोक का वह यिरिद का वह महललेल का वह केनान का, वह इनीश का वह शेत का वह आदम का और वह परमेश्वर का ॥

४. यीशु पवित्रान्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मीय दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और

२ शैतान<sup>१</sup> उस की परीक्षा करता रहा । उन दिनों में उस  
 ने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे  
 ३ भूख लगी । और शैतान<sup>१</sup> ने उस से कहा यदि तू  
 परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी  
 ४ बन जाए । यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है  
 ५ मनुष्य केवल रोटी ही स जीता न रहेगा । तब शैतान  
 उसे ले गया और उस को पल भर में जगत के सारे  
 ६ राज्य दिखाए । और शैतान<sup>१</sup> ने उस से कहा मैं यह  
 सब अधिकार और इन का विभव तुझे दूंगा क्योंकि वह  
 मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे  
 ७ देता हूँ । इसलिये यदि तू मुझे प्रणाम कर तो यह सब  
 ८ तेरा हो जाएगा । यीशु ने उसे उत्तर दिया लिखा है कि  
 तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी  
 ९ का उपासना कर । तब उस ने उसे यरूशलेम में ले  
 जाकर मंदिर के कंगूर पर खड़ा किया और उस से कहा  
 यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से  
 १० नीचे गिरा दे । क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय  
 अपने स्वगद्गोता का आज्ञा देगा कि तू तेरी रक्षा करे ।  
 ११ और तू तुझ हाथों हाथ उठा लेंगे न हो कि तेरे पांव में  
 १२ पत्थर से ठस लगे । याशु ने उस को उत्तर दिया यह भी  
 कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा न  
 १३ करना । जब शैतान<sup>१</sup> सब परीक्षा कर चुका तब कुछ  
 समय के लिए उस के पास से चला गया ॥  
 १४ फिर याशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील  
 का लौटा और उस की चर्चा आसपास के सारे देश में  
 १५ फैल गई । और वह उन का सभा के घरों में उपदेश  
 करता रहा और सब उस की बड़ाई करते थे ॥  
 १६ और वह नासरत में आया जहां पाला गया था  
 और अपनी राति के अनुसार विश्राम के दिन सभा के  
 १७ घर में जाकर पढ़ने का खड़ा हुआ । यथायाह नबी की  
 पुस्तक उसे दी गई और उस ने पुस्तक खोलकर वह  
 १८ जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा  
 मुझ पर है इसलिये कि उस ने कंगालों का सुसमाचार  
 सुनाने के लिए भरा अभिषेक किया है और मुझे इस  
 लिये भेजा है कि बन्धुओं का छुटकारा और अंधों का  
 दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुआओं का छुड़ाऊं ।  
 १९ और प्रभु के प्रसन्न रहने के बरस का प्रचार करूं ।  
 २० तब उस ने पुस्तक बन्द करके सेवक के हाथ में दी  
 और बैठ गया और सभा के सब लोगों की आँखें उस  
 २१ पर लगी थीं । तब वह उन से कहने लगा कि आज ही

यह लेख तुम्हारे साम्हने<sup>२</sup> पूरा हुआ है । और सब ने २२  
 उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उस के मुँह से  
 निकलती थीं उन से अचम्भा किया और कहने लगे क्या  
 यह यूसुफ का पुत्र नहीं । उस ने उन से कहा तुम मुझ २३  
 पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य अपने आप को  
 अच्छा कर । जो कुछ हम ने सुना कि कफरनहूम में  
 किया गया वह यहा अपने देश में भी कर । और उस ने २४  
 कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कोई नबी अपने देश में  
 मान सम्मान नहीं पाता । और मैं तुम से सच कहता हूँ २५  
 कि एलियाह के दिनों में जब साढ़े तीन बरस आकाश  
 बन्द रहा था यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल  
 पड़ा तो इस्राईल में बहुत सी विधवा थीं । पर एलियाह २६  
 उन में से किसी के पास न भेजा गया केवल सैदा के  
 सारफत में एक विधवा के पास । और इलीशा नबी के २७  
 समय इस्राईल में बहुत काढ़ी थे पर नामान सूर्यानी को  
 छोड़ उन में से कोई शुद्ध न किया गया । ये बातें सुनते २८  
 ही जितने सभा में थे सब क्रोध से भर गये । और उठकर २९  
 उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उन का  
 नगर बसा था उस की चोटी पर ले चले कि उसे नीचे  
 गिरा दें । पर वह उन के बीच में से निकलकर चला ३०  
 गया ॥

फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया और ३१  
 विश्राम के दिन लोगों का उपदेश दे रहा था । वे उस ३२  
 के उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उस का बचन  
 अधिकार सहित था । सभा के घर में एक मनुष्य था ३३  
 जिस में अशुद्ध आत्मा था । वह ऊंचे शब्द से चिल्ला ३४  
 उठा हे यीशु नासरी हमें तुझ से क्या काम । क्या तू  
 हमें नाश करने आया है । मैं तुझे जानता हूँ कि तू  
 कौन है परमेश्वर का पवित्र जन । यीशु ने उसे डांटकर ३५  
 कहा चुप रह और उस में से निकल जा । तब दुष्टात्मा  
 उसे बीच में पटककर हानि पहुंचाए बिना उस से निकल  
 गया । इस पर सब को अचम्भा हुआ और वे आपस में ३६  
 बातें करके कहने लगे यह कैसा बचन है कि वह  
 अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं का  
 आज्ञा देता है और वे निकल जाते हैं । सो चारों ओर ३७  
 हर जगह उसकी धूम मच गई ॥

वह सभा के घर में से उठकर शमौन के घर में ३८  
 गया और शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी  
 और उन्होंने ने उस के लिए उस से विनती की । उस ने ३९  
 उस के निकट खड़े होकर तप को डांटा और वह उस

(१) यू० । इबलीम ।

(२) यू० । कानों ४ ।

पर से उतर गई और वह तुरन्त उठकर उन की सेवा करने लगी ॥

- ४० सूरज डूबते समय जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे वे सब उन्हें उस के पास लाए और उस ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा ४१ किया। और दुष्टात्मा भी चिल्लाते और यह कहते हुए कि तू परमेश्वर का पुत्र है बहुतों में से निकल गए पर वह उन्हें डांटता और बोलने न देता था क्योंकि वे जानते थे कि यह मसीह है ॥
- ४२ जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक जंगली जगह में गया और भीड़ की भांड उसे ढूढ़ता हुई उस के पास आई और उसे गकने लगी कि हमारे पास से ४३ न जा। पर उस ने उन से कहा मुझे और और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है क्योंकि मैं इसी लिये भेजा गया हूं ॥
- ४४ सो वह गलील की सभा के घरों में प्रचार करता रहा ॥

## ५. जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और

परमेश्वर का वचन सुनती थी और

- २ वह गन्नेसरत की भील के किनारे खड़ा था। तो उस ने भील के किनारे दो नावें लगी देखी और मछुवे उन पर ३ से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उस ने उस से विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल तब वह बैठकर लोगों का ४ नाव पर से उपदेश करने लगा। जब वह बातें कर लुका तो शमौन से कहा गहिर में ले चल और मछुलियां पक- ५ डने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उस को उत्तर दिया कि हे स्वामी हम ने सारी रात मिहनत की और कुछ न पकड़ा तो भी तरे कहने से जाल डालूंगा। ६ जब उन्होंने ने ऐसा किया तो बहुत मछुलियां घेर लाए ७ और उन के जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने ने अपने साकियों को जो दूसरी नाव पर थे सैन किया कि आकर हमारी सहायता करो और उन्होंने ने आकर दोनों नाव यहां ८ एक भरी कि वे डूबने लगीं। यह देखकर शमौन पतरम यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पांव से ९ जा मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछुलियों के पकड़े जाने से उसे और उस के साथियों का बहुत १० अचम्भा हुआ। और वैसे ही ज़बदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के साथी थे अचम्भा हुआ तब यीशु ने शमौन से कहा मत डर अब से तू मनुष्यों ११ को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों के किनारे पर लाए और सब कुछ छोड़कर उस के पीछे हो लिए ॥

जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से १२ भरा हुआ एक मनुष्य था और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु यदि तू १३ चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस ने हाथ बढ़ा कर उसे छूआ और कहा मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा और उस का कोढ़ तुरन्त जाता रहा। तब उस ने उसे चिताया १४ कि किसी से न कह पर जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। पर उस १५ की चर्चा और भी फल गई और भीड़ की भीड़ उस की सुनने का और अपनी बाजारियों से चंग होने के लिए इकट्ठी हुई। पर वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना १६ करता था ॥

और एक दिन वह उपदेश कर रहा था और फरीसी १७ और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उस के साथ थी। और देखो कई लोग एक मनुष्य को जा भाले का १८ मारा था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के साम्हने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और १९ जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जाने पाए तो उन्होंने ने कोठे पर चढ़ के और खपड़े हटाकर उसे खाट समत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उस ने उन २० का विश्वास देखकर उस से कहा, हे मनुष्य तरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विचार करने लगे २१ कि यह कौन है जो परमेश्वर की निन्दा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने उन के मन की बातें जानकर उन से कहा कि २२ तुम अपने मनों में क्या विचार कर रहे हो। सहज २३ क्या है क्या यह कहना कि तरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि उठ और चल फिर। पर इसलिये कि तुम २४ जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथिवी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है (उस ने उस भाले के मार से कहा) मैं तुम्ह से कहता हूं उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरन्त उन के सामने २५ उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ घर चला गया। तब सब २६ चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हम ने अनोखी बातें देखीं ॥

और इस के पीछे वह बाहर गया और लेवी २७ नाम एक महसूल लेनेवाले को महसूल की चौकी पर

२८ बैठे देखा और उस से कहा मेरे पीछे हो ले । तब वह सब कुछ छोड़ कर उठा और उस के पीछे हो लिया ।  
 २९ और लेवी ने अपने घर में उस के लिए बड़ी जेवनार की और महसूल लेनेवालों और औरों की जो उस के साथ भोजन करने बैठे थे बड़ी भीड़ थी । और फरीसी और उन के शास्त्री उस के चलो से यह कह कर कुड़-कुड़ाने लगे कि तुम महसूल लेनेवालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो । यीशु ने उन को उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के नहीं पर बीमारों के अवश्य है । मैं धर्मियों का नहीं पर पापियों का मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ । और उन्होंने ने उस से कहा यूहन्ना क चले बार बार उपवास और प्रार्थना किया करत है और वैसे ही फरीसियों के भी पर तेरे चले खाते पाते हैं । यीशु ने उन से कहा क्या तुम बरातियों से जब तक दूलहा उन के साथ रहे उपवास करवा सकते हो । पर वे दिन आएंगे जिन में दूलहा उन से अलग किया जाएगा तब वे उन दिनों में उपवास करंगे । उस ने एक दृष्टान्त भी उन से कहा कि कोई मनुष्य नए पहिरावन में से फाड़ कर पुराने पहिरावन में पवन्द नहीं लगाता नहीं तो नया फटेगा और वह पवन्द पुराने में मेल भी न खाएगा । और कोई नया दाख रस पुरानी मशकों में नहीं भरता नहीं तो नया दाख रस मशकों का फाड़कर वह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएगी । पर नया दाख रस नई मशकों में भरना चाहिए । कोई मनुष्य पुराना दाख रस पीकर नया नहीं चाहता क्योंकि वह कहता है पुराना ही अच्छा है ॥

**६. फिर** विश्राम के दिन वह खेतों से जा रहा था और उस के चले वालें

तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे । तब फरीसियों में से कई एक कहने लगे तुम वह काम क्यों करते हो जो विश्राम के दिन करना उचित नहीं ।  
 ३ यीशु ने उन को उत्तर दिया क्या तुम ने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उस के साथी भूखे हुए तो क्या किया । वह क्योंकि परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं और अपने साथियों को भी दीं । और उस ने उन से कहा मनुष्य का पुत्र विश्राम के दिन का भी प्रभु है ॥  
 ६ किसी और विश्राम के दिन को वह सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा और वहां एक मनुष्य था

जिस का दहिना हाथ सूखा था । शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उस की ताक में थे कि वह विश्राम के दिन में चढ़ा करेगा कि नहीं । पर वह उन के विचार जानता था और सूखे हाथवाले मनुष्य से कहा उठ बीच में खड़ा हो । वह उठ कर खड़ा हुआ । यीशु ने उन से कहा मैं तुम से यह पूछता हूँ विश्राम के दिन क्या उचित है भला करना या बुरा करना प्राण को बचाना या नाश करना । और उस ने चारों ओर उन सब को देखकर उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा । उस ने ऐसा किया और उस का हाथ फिर अच्छा हो गया । पर वे आप से बाहर होकर आपस में कहने लगे हम यीशु के साथ क्या करें ॥

और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई । जब दिन हुआ तो उस ने अपने चलो को बुला कर उन में से बारह चुन लिए और उन को प्रेरित कहा । और वे ये हैं, शमौन जिस का नाम उस ने पतरस भी रक्खा और उस का भाई अन्द्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुलमै, और मती और तोमा और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जो जेलोतंस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इसकरियोती जो उस का पकड़वानेवाला बना । तब वह उन के साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उस के चलो की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनार से बहुतेरे लोग जो उस की सुनने और अपनी बीमारियों से चंगे हो जाने के लिए उस के पास आए थे । और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किये जाते थे । और सब उसे लूना चाहते थे क्योंकि उस से सामर्थ निकल कर सब को अच्छा करती थी ॥

तब उस ने अपने चलो की ओर देखकर कहा धन्य हो तुम जो दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है । धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किये जाओगे धन्य हो तुम जो अब राते हो क्योंकि हंसोगे । धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम से बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निन्दा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे । उस दिन आनन्द होकर उछलना क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, उन के बाप दादे नबियों के साथ वैसा ही किया करते थे । परन्तु हाय तुम पर जो धनवान् हो क्योंकि तुम अपनी शान्ति पा चुके । हाय तुम पर जो अब भरपूर

हो क्योंकि भूखे होगे । हाथ तुम पर जो अब हंसते हो २६ क्योंकि शोक करोगे और रोओगे । हाथ तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें । उन के बाप दादे भूठे नबियों के साथ वैसा ही किया करते थे ॥

२७ पर मैं तुम सुननेवालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो जो तुम से बैर करें उन का भला २८ करो । जो तुम्हें साप दें उन को आशिष देओ और जो २९ तुम्हारा अपमान करें उन के लिये प्रार्थना करो । जो तेरे एक गाल पर मारे उस की और दूसरा भी फेर दे और जो तेरी दाहल लीन ले उस को कुरता लेने से भी ३० न रोक । जो कोई तुम्हें से मागे उसे दे और जो तेरी ३१ वस्तु लीन ले उस से न माग । और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उन के साथ ३२ वैसा ही करो । यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई क्योंकि पापी ३३ भी अपने प्रेम रखनेवालों के साथ प्रेम रखते हैं । और यदि तुम अपने भलाई करनेवाला ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई क्योंकि पापी भी ऐसा ३४ ही करते हैं । और यदि तुम उन्हें उधार दो जिन से फिर पाने की आस रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर ३५ पाएँ । पर अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के सन्तान ठहरोगे क्योंकि वह उन पर जो ३६ धन्यवाद नहीं करते और बुरां पर भी कृपाल हैं । जैसा तुम्हारा पिता दयावन्त है वैसे ही तुम भी दयावन्त ३७ बनो । दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा दोषी न ठहराना तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे । क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी । दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा लाग पूरा नाप दवा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नाप जाएगा ॥

३९ फिर उस ने उन से एक दृष्टान्त कहा क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है क्या दानों गड़दे में न ४० गिरेंगे । चेला अपने गुरु से बढ़ा नहीं पर जो कोई सिद्ध ४१ होगा वह अपने गुरु के समान होगा । तू अपने भाई की आख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आख का लट्टा तुम्हें नहीं सूझता । और जब तू अपनी ही आख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से क्योंकर कह सकता

है हे भाई ठहर जा तेरी आख से तिनके को निकाल दू । हे कपटी पहिले अपनी आख से लट्टा निकाल तब जो तिनका तेरे भाई की आख में है भली भाँति देखकर निकाल सकेगा । कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल ४३ लाए और न कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए । हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है क्योंकि लोग ४४ भाड़ियों से अजीर नहीं तोड़ते और न भरवेरी से अंगूर । भला मनुष्य अपने मन के भले भएडार से भली बातें ४५ निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भएडार से बुरी बातें निकालता है क्योंकि जो मन में भरा है वही उस के मुँह पर आता है ॥

जब तुम मेरा कहा नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु ४६ हे प्रभु कहते हो । जो कोई मेरे पास आता है और मेरी ४७ बातें सुनकर उन्हें मानता है मैं तुम्हें बताऊंगा वह किस के समान है । वह उस मनुष्य के समान है जिस ने घर ४८ बनाते समय भूमि गहरा खादकर चटान पर नेव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी पर उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था । पर जो सुनकर ४९ नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिस ने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया । जब उस पर धारा लगी तो वह तुरन्त गिर पड़ा और गिरकर उस का सत्यानाश हो गया ॥

## ७. जब वह लोगों को अपनी सारी बातें

सुना चुका तो कफरनहूम में आया । और किसी सूत्रेदार का एक दास जो उस का प्रिय था २ बीमारी से मरने पर था । उस ने यीशु की चर्चा सुन ३ कर यहूदियों के कई पुरनियों को उस से यह बिनती करने को उस के पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर । वे यीशु के पास आकर उस से बड़ी ४ बिनती कर के कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उस के लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जात से प्रेम रखता है और उसी ने हमारा सभा का घर बनाया है । यीशु उन के साथ साथ चला पर जब वह घर से ६ दूर न था तो सूत्रेदार ने उस के पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु दुख न उठा क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए । इसी कारण ७ मैं ने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊँ पर वचन ही कह तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा । मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे को आ तो वह आता है और

९ अपने दास को कि यह कर तो वह करता है । यह मुन-  
कर यीशु ने अचम्भा किया और उस ने मुंह फेरकर उस  
भीड़ से जो उस के पीछे आ रही थी कहा मैं तुम से  
कहता हूँ कि मैं ने इज्राईल में भी ऐसा विश्वास नहीं  
१० पाया । और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास  
को चंगा पाया ॥

११ थोड़े दिन के पीछे वह नाईन नाम एक नगर  
को गया और उस के चेले और बड़ी भीड़ उस के साथ  
१२ जा रही थी । जब वह नगर के फाटक के पास पहुँचा  
तो देखो एक मुरदे को बाहर लिए जाते थे जो अपनी  
माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और  
१३ नगर के बहुतरे लोग उस के साथ थे । उमे देख कर  
१४ प्रभु को तरस आया और उस से कहा मत रो । तब उस  
ने पास आकर अर्थाँ को छूआ और उठानेवाले ढहर गए  
१५ तब उस ने कहा हे जवान मैं तुझ से कहता हूँ उठ । तब  
मुरदा उठ बैठा और बोलने लगा और उस ने उमे उस  
१६ की माँ को सौंप दिया । इस से सब पर भय छा गया और  
वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में  
एक बड़ा नबी उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों  
१७ पर कृपा दृष्टि की है । और उस के विषय यह  
बात सारे यहूदिया और आस पास के सारे देश में  
फैल गई ॥

१८ और यहूदा को उस के चेलों ने इन सब बातों का  
१९ समाचार दिया । तब यहूदा ने अपने चेलों में से दो को  
बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने को भेजा कि आनेवाला  
२० तू ही है या हम दूसरे की आस रक्वें । उन्होंने उस के  
पास आकर कहा यहूदा बपतिसमा देनेवाले ने हमें तेरे  
पास यह पूछने को भेजा है कि आनेवाला तू ही है या  
२१ हम दूसरे की बात जोहें । उसी घड़ी उस ने बहुतों को  
बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और  
२२ बहुत से अंधों को आंखें दीं । और उस ने उन से कहा  
जो कुछ तुम ने देखा और सुना है जाकर यहूदा से कह  
दाँ कि अंधे देखने लगे चलते चलते काटी शुद्ध किए  
जाते बाहिर मुनते मुरदे जिलाए जाते हैं और कंगालों को  
२३ सुसमाचार सुनाया जाता है । और अन्य है वह जो मेरे  
कारण टाँकर न आए ॥

२४ जब यहूदा के भेजे हुए लोग चल दिए तो  
यीशु यहूदा के विषय लोगों से कहने लगा तुम जंगल  
में क्या देखने गए थे क्या हवा से हिलते हुए सरकण्डे  
२५ को । फिर तुम क्या देखने गए थे क्या कोमल वस्त्र पहिने  
हुए मनुष्य को । देखो जो भड़कीला वस्त्र पहिने और  
२६ सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं । तो

क्या देखने गए थे क्या किसी नबी को । हाँ मैं तुम से  
कहता हूँ बरन नबी से भी बड़े को । यह वही है जिस के २७  
विषय लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे  
आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग सुधारेंगा । मैं तुम २८  
से कहता हूँ कि जो स्त्रियों में जन्मे हैं उन में से यहूदा से  
बड़ा कोई नहीं पर जो परमेश्वर के राज्य में लंटे से छोटा  
है वह उस से बड़ा है । और सब साधारण लोगों ने २९  
मुनकर और महसूल लेनेवालों ने भी यहूदा का बपतिसमा  
लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया । पर फरीसियों ३०  
और व्यवस्थापकों ने उस से बपतिसमा न लेकर परमेश्वर  
की मनसा को अपने विषय टाल दिया । मेा मैं इस ३१  
समय के लोगों की उपमा किस से दूँ वे किस के समान  
हैं । वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए ३२  
एक दूसरे से पुकारकर कहते हैं हम ने तुम्हारे लिये बांसली  
बजाई और तुम न नाचे हम ने विलाप किया और तुम  
न रोए । क्योंकि यहूदा बपतिसमा देनेवाला न रांटी ३३  
खाता न दाख रस पीता आया और तुम कहने हो उस में  
दुष्टात्मा है । मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और  
तुम कहते हो देखो पेट और पियककड़ मनुष्य महसूल ३४  
लेनेवालों और पापियों का मित्र । पर जान अपने सव ३५  
सन्तानों से सच्चा ढहराया गया है ॥

फिर किसी फरीसी ने उस से विनगी की कि मेरे ३६  
साथ भोजन कर सो वह उस फरीसी के घर में जाकर  
भोजन करने बैठा । और देखो उस नगर की एक ३७  
पापिनी स्त्री यह जान कर कि वह फरीसी के घर में  
भोजन करने बैठा है संगमरमर के पात्र में अतर लाई ।  
और उस के पांवों के पाम पीछे खड़ी होकर रांती हुई ३८  
उस के पांवों को आंसुओं से भिगाने लगी और अपने  
सिर के बालों से पीछे और उस के पांव बार बार चूम-  
कर उन पर अतर मला । यह देखकर वह फरीसी जिस ३९  
ने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा यदि यह  
नबी होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है सो  
कौन और कैसी स्त्री है क्योंकि वह पापिनी है ।  
यीशु ने उस से उत्तर दे कहा कि हे शमीन तुझे ४०  
तुझ से कुछ कहना है वह बोला हे गुरु कह । किसी ४१  
मराजन के दो देनदार थे एक पांच सौ और दूसरा  
पन्नाम दीनार धारता था । जब कि उन के पास पटाने ४२  
का कुछ न रहा तो उस ने दोनों को क्षमा कर दिया सो  
उन में से कौन उस से अधिक प्रेम रखेगा । शमीन ने ४३  
उत्तर दिया मेरी समझ में वह जिस का उस ने अधिक

छोड़ दिया? । उस ने उस से कहा तू ने ठीक विचार  
 ४४ किया है । और उस स्त्री की आंर फिरकर उस ने शमीन  
 से कहा क्या तू इस स्त्री को देखता है । मैं तेरे घर में  
 आया तू ने मेरे पांव धोने को पानी न दिया पर इस ने  
 मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोछे ।  
 ४५ तू ने मुझे चूमा न दिया पर जब से मैं आया तब से  
 ४६ इस ने मेरे पांवों का चूमना न छोड़ा । तू ने मेरे सिर  
 पर तेल नहीं मला पर इस ने मेरे पांवों पर अंतर मला  
 ४७ है । इसलिये मैं तुझ से कहता हूँ कि उस के पाप जो  
 बहुत थे क्षमा हुए कि इस ने तो बहुत प्रेम किया पर  
 जिस का थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है ।  
 ४८, ४९ और उस ने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए । तब  
 जो लोग उस के साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने  
 मन में सोचने लगे यह कौन है जो पापों को भी क्षमा  
 ५० करता है । पर उस ने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे  
 बचा लिया है कुशल से चली जा ॥

### ८. इम के पीछे वह नगर नगर और गांव

गांव प्रचार करता हुआ और  
 परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने  
 २ लगा । और वे बारह उस के साथ थे और कितनी  
 स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और वीमारियों से छुड़ाई  
 गई थीं और वे ये हैं मरयम जो मगदलीनी कहलाती  
 ३ थी जिस में से सात दुष्टात्मा निकले थे । और हेरोदेस  
 के भण्डारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सूमन्नाह और  
 बहुत सी और स्त्रियां ये तो अपनी सम्पत्ति से उस की  
 सेवा करती थीं ॥  
 ४ जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग  
 उस के पास चले आते थे तो उस ने दृष्टान्त में कहा कि  
 ५ एक बानेवाला बीज बोने निकला । बोते हुए कुछ मार्ग  
 के किनारे गिरा और रोँदा गया और आकाश के पत्तियों  
 ६ ने उसे चुग लिया । और कुछ चटान पर गिरा और उपजा  
 ७ पर तरी न पाने से सूख गया । कुछ झाड़ियों के बीच में  
 गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया ।  
 ८ और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर सौ गुना  
 फल लाया । यह कह कर उस ने जंचे शब्द से कहा  
 जिस के सुनने के कान हों वह सुन ले ॥  
 ९ उस के चेलों ने उस से पूछा कि यह दृष्टान्त क्या  
 १० है । उस ने कहा तुम को परमेश्वर के राज्य के भेदों की  
 समझ दी गई है पर औरों के दृष्टान्तों में सुनाया जाता

(१) य० । क्षमा किया ।

है इसलिये कि वे देखने हुए न देखें और सुनते हुए  
 न समझें । दृष्टान्त यह है बीज तो परमेश्वर का वचन ११  
 है । मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान १२  
 आकर उन के मन में से वचन उठा ले जाता है ऐसा न  
 हो कि वे विश्वास करके उठार पाएं । चटान पर के वे १३  
 हैं कि जब सुनते हैं तो आनन्द से वचन को ग्रहण  
 करत हैं पर जड़ न रखने से वे थोड़ी देर तक विश्वास  
 रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं । जो १४  
 झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं पर होते होते  
 चिन्ता और धन और जीवन के सुख बिलास में फंस  
 जाते हैं और उन का फल नहीं पकता । पर अच्छी भूमि १५  
 में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में  
 सम्भाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं ॥

कौई दिया बार के बरतन में नहीं छिपाता न खाट १६  
 के नीचे रखता है पर दीवट पर रखता है कि भीतर  
 आनेवाले उजाला पाएं । कुछ छिपा नहीं जो प्रगट न १७  
 हो और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रगट न  
 हो । इसलिये चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते १८  
 हो क्योंकि जिस के पास है उसे दिया जाएगा और जिस  
 के पास नहीं है उस से वह भी ले लिया जाएगा जो  
 अपना समझता है ॥

उस की माता और उस के भाई उस के पास आए १९  
 पर भीड़ के कारण उस से भेंट न कर सके । और उस २०  
 से कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े  
 हुए तुझ से मिलना चाहते हैं । उस ने उत्तर दे उन से २१  
 कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर  
 का वचन सुनते और मानते हैं ॥

फिर एक दिन वह और उस के चेलों नाव पर चढ़े २२  
 और उस ने उन से कहा कि आओ भील के पार चल  
 सो उन्हीं ने नाव खोल दी । पर नाव जब चल रही २३  
 थी तो वह सा गया और भील पर आंधी आई और  
 नाव पानी में भरी जाती थी और वे जोखिम में थे । तब २४  
 उन्हीं ने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी स्वामी  
 हम नाश हुए जाते हैं । तब उस ने उठ कर आंधी को  
 और पानी के हिलकेगों को डांटा और वे थम गये और  
 चैन हो गया । और उस ने उन से कहा तुम्हारा विश्वास २५  
 कहाँ था पर वे डर गए और अचम्भित हो आपस में कहने  
 लगे यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा  
 देता है और वे उस की मानते हैं ॥

फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार २६

(२) य० । शबलोस ।

२७ गलील के सामने है । जब वह किनारे पर उतरा तो उस  
नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिस में दुष्टात्मा थे  
और बहुत दिनों से न कपड़े पहिनाता न घर में रहता  
२८ बरन क़बरों में रहा करता था । वह यीशु को देखकर  
चिल्लाया और उस के सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा  
हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मुझे तुझ से क्या  
२९ काम मैं तेरी विनती करता हूँ मुझे पीड़ा न दे । क्योंकि  
वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने  
की आज्ञा दे रहा था क्योंकि वह उस पर बार बार प्रवल  
होता था और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से  
बांधते थे तभी वह बांधनों को तोड़ डालता था और  
दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाये फिरता था । यीशु ने उस  
३० से पूछा तेरा क्या नाम है उस ने कहा सेना क्योंकि  
३१ बहुत दुष्टात्मा उस में पैठ गये थे । और उन्होंने उस से  
विनती की कि हमें अथाह गढ़हे में जाने की आज्ञा न  
३२ दे । वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुण्ड चर रहा  
था सो उन्होंने उस से विनती की कि हमें उन में पैठने  
३३ दे सो उस ने उन्हें जाने दिया । तब दुष्टात्मा उस मनुष्य  
में निकल कर सूअरों में पैठे और वह झुण्ड कड़ाड़े पर  
३४ से झपटकर भील में जा पड़ा और डूब मरा । चरवाहे  
यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांवों  
३५ में जाकर उम का समाचार कहा । और लोग यह जो  
हुआ था देखने को निकले और यीशु के पास आकर  
जिस मनुष्य से दुष्टात्मा निकले थे उस यीशु के पांवों के  
पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पा कर डर गए ।  
३६ और देखनेवालों ने उन को बताया कि वह दुष्टात्मा का  
३७ सताया हुआ मनुष्य क्योंकि वच गया था । तब गिरा-  
सेनियों के आस पास के सारे लोगों ने यीशु से विनती की  
कि हमारे यहां से चला जा क्योंकि उन पर बड़ा भय छा  
३८ गया था सो वह नाव पर चढ़ के लौट गया । जिस मनुष्य  
से दुष्टात्मा निकले थे वह उस से विनती करने लगा कि  
मुझे अपने साथ रहने दे पर यीशु ने उसे बिदा करके कहा,  
३९ अपने घर को लौट कर कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिये  
कैसे बड़े काम किये हैं । वह जाकर सारे नगर में प्रचार  
करने लगा कि यीशु ने मेरे लिये कैसे बड़े काम किए ॥  
४० जब यीशु लौट रहा था तो लोग उस से आनन्द  
के साथ मिले क्योंकि वे सब उस की बात जोह रहे थे ।  
४१ और देखो याईर नाम एक मनुष्य जो सभा का सरदार  
था आया और यीशु के पांवों पड़ के उस से विनती  
४२ करने लगा कि मेरे घर चल । क्योंकि उस के बारह बरस  
की एकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी । जब वह  
जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे ॥

और एक स्त्री ने जिस को बारह बरस से लोहू बहने ४३  
का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे  
उठाकर भी किसी के हाथ से अच्छी न हो सकी थी,  
पीछे से आकर उस के वस्त्र के आंचल को छूआ और ४४  
तुरन्त उस का लोहू बहना थम गया । इस पर यीशु ने ४५  
कहा मुझे किस ने छूआ जब सब मुकरने लगे तो पतरस  
और उस के साथियों ने कहा हे स्वामी तुम्हें भीड़ दबा  
रही और तुम्हें पर गिरी पड़ती है । पर यीशु ने कहा किसी ४६  
ने मुझे छूआ क्योंकि मैं ने जाना कि मुझ से सामर्थ  
निकली है । जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तब ४७  
कांपती हुई आई और उस के पांवों पर गिर कर सब  
लोगों के सामने बताया कि मैं ने किस कारण से तुम्हें  
छूआ और क्योंकि तुरन्त चंगी हुई । उस ने उस से ४८  
कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगी किया है कुशल से  
चली जा ॥

वह यह कह ही रहा था कि किसी ने सभा के घर ४९  
के सरदार के यहां से आकर कहा तेरी बेटी मर गई गुरु  
को दुख न दे । यीशु ने सुन कर उसे उत्तर दिया मत ५०  
डर केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी । घर में ५१  
आकर उस ने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की  
के माता पिता को छोड़ किसी को अपने साथ भीतर  
आने न दिया । और सब उस के लिये रो पीट रहे थे पर ५२  
उस ने कहा रोगियों मत वह मरी नहीं पर साती है । वे ५३  
यह जान कर कि मर गई है उस की हंसी करने लगे ।  
पर उस ने उम का हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा हे ५४  
लड़की उठ । तब उस का प्राण फिर आया और वह ५५  
तुरन्त उठी फिर उस ने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को  
दिया जाए । उस के माता पिता चकित हुए पर उस ने ५६  
उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से न कहना ॥

९. फिर उस ने बारहों को बुलाकर उन्हें  
सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को  
दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया । और उन्हें २  
परमेश्वर का राज्य प्रचार करने और बीमारों को अच्छा  
करने के लिये भेजा । और उस ने उन से कहा मार्ग ३  
के लिये कुछ न लेना न लाठी न भोली न रोटी न  
रुपये न दो दो कुरते । और जिस किसी घर में तुम ४  
उतरो वहीं रहो और वहीं से बिदा हो । जो कोई तुम्हें  
ग्रहण न करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की ५  
धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो । सो वे निकल-  
कर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों ६  
को चंगा करते हुए फिरते थे ॥



७ और देश की चौथाई का राज। हेरोदेस यह सब सुन कर घबरा गया क्योंकि कितनों ने कहा यूहन्ना मरे हुआ ८ में से जी उठा है। और कितनों ने यह कि एलिय्याह दिखाई दिया है और औरों ने यह कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। पर हेरोदेस ने कहा यूहन्ना का तो मैं ने सिर कटवाया अब यह कौन है जिस के विषय मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। और उस ने उसे देखना चाहा ॥

१० फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने ने किया था उस को बता दिया और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा ११ नाम एक नगर को ले गया। भीड़ यह जानकर उस के पीछे हो ली और वह आनन्द के साथ उन से मिला और उन से परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और १२ जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उस से कहा भीड़ को बिदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें क्योंकि हम यहां सुनसान १३ जगह में हैं। उस ने उन से कहा तुम ही उन्हें खाने को दो उन्होंने ने कहा हमारे पास पांच रोटियां और दो मछली छोड़ और कुछ नहीं पर हां यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिये भोजन मोल लें तो हो। वे लोग तो पांच इन्जार १४ पुरुषों के लगभग थे। तब उस ने अपने चेलों से कहा उन्हें पचास पचास करके पांति पांति बैठा दो। उन्होंने ने १५ ऐसा ही किया और सब को बैठा दिया। तब उस ने वे १६ पांच रोटियां और दो मछली लीं और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़कर चेलों को देता १७ गया कि लोगों को परोसें। सो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से बारह टोकरी भरकर उठाई ॥

१८ जब वह एकान्त में प्रार्थना कर रहा था और चले उस के साथ थे तो उस ने उन से पूछा कि लोग १९ मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने ने उत्तर दिया यूहन्ना बप-तिसमा देनेवाला और कोई कोई एलिय्याह और कोई २० यह कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। उस ने उन से पूछा फिर तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस ने २१ उत्तर दिया परमेश्वर का मसीह। तब उस ने उन्हें २२ चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। और उस ने कहा मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिए और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन २३ जी उठे। उस ने सब से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे को नकारे और दिन दिन अपना २४ क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा पर जो कोई

मेरे लिये अपना प्राण खोए वही उसे बचाएगा। यदि २५ मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खोए या उस की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो २६ कोई मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उस से लजा-एगा। मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उन २७ में से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चक्खेंगे ॥

इन बातों के कोई आठ दिन पीछे वह पतरस और २८ यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने को पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उस २९ के मुंह का रूप और ही हां गया और उस का वस्त्र उजला होकर चमकने लगा। और देखा मूसा और ३० एलिय्याह ये दो पुरुष उस के साथ बातें कर रहे थे। ये ३१ महिमा सहित दिखाई दिए और उस के मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होनेवाला था। पतरस और ३२ उस के साथी नींद में भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उस की महिमा और उन दो पुरुषों को जो उस के साथ खड़े थे देखा। जब वे उस के पास से जाने ३३ लगे तो पतरस ने यीशु से कहा हे स्वामी हमारा यहां रहना अच्छा है सो हम तीन मण्डप बनाएं एक तेरे लिये एक मूसा के लिये और एक एलिय्याह के लिये। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही ३४ रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से धिरने लगे तो डर गये। और उस ३५ बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र मेरा चुना हुआ है इस की सुनो। यह शब्द होते ही यीशु ३६ अकेला पाया गया। और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उस की कोई बात उन दिनों में किसी से न कही ॥

और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक ३७ बड़ी भीड़ उस से आ मिली। और देखो भीड़ में से ३८ एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा हे गुरु मैं तुझ से बिनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपादायक कर क्योंकि वह मेरा एकलौता है। और देख ए० दुष्टात्मा उसे पकड़ता है ३९ और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ता है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है। और मैं ने तेरे चेलों ४० से बिनती की कि उसे निकालें पर वे न निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया हे अविश्वासी और हठीले लोगो ४१

(१) यू०। बिदा होने।

(२) यू० पीड़ो।

- मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहंगा ।  
 ४२ अपने पुत्र को यहां ले आ । वह आता ही था कि  
 दुष्टात्मा ने उसे पटककर मरोड़ा पर यीशु ने अशुद्ध  
 आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उस के  
 ४३ पिता को सौंप दिया । तब सब लोग परमेश्वर की महा-  
 सामर्थ से चकित हुए ॥
- ४४ पर जब सब लोग उन सारे कामों से जो वह करता  
 था अचम्भा कर रहे थे तो उस ने अपने चेलों से कहा  
 ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहें क्योंकि मनुष्य का पुत्र  
 ४५ मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने का है । पर वे इस  
 बात को न समझते थे और यह उन से छिपी रही कि वे  
 उसे जानने न पाएं और वे इस बात के विषय उस से  
 पूछने से डरते थे ॥
- ४६ फिर उन में यह विवाद होने लगा कि हम में से  
 ४७ बड़ा कौन है । पर यीशु ने उन के मन का विचार जान  
 लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया ।  
 ४८ और उन से कहा जो कोई मेरे नाम से इस बालक को  
 ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो कोई  
 मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता  
 है । जो तुम मय में लोटे में लोटा है वही बड़ा है ॥
- ४९ तब यूहन्ना ने कहा हे स्वामी हम ने एक मनुष्य  
 को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालना देखा और हम  
 ने उसे मना किया क्योंकि वह हमारा साथ होकर तरे पीछे  
 ५० नहीं हों लेता । यीशु ने उस से कहा उसे मना मत करो  
 क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है ॥
- ५१ जब उस के ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर  
 थे तो उस ने यरूशलेम जाने को अपना मन दृढ़ किया ।  
 ५२ और उस ने अपने आगे दूत भेजे । वे सामरियों के एक  
 ५३ गांव में गए कि उस के लिये जगह तैयार करें । पर उन  
 लोगों ने उसे उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम को  
 ५४ जा रहा था । यह देखकर उस के चेले याकूब और यूहन्ना  
 ने कहा हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि  
 ५५ आकाश से आग गिरे और उन्हें भस्म कर दे । पर उस  
 ५६ ने फिर कर उन्हें डांटा । और वे किसी और गांव में  
 चले गए ॥
- ५७ जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उस से  
 ५८ कहा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे ही लूंगा । यीशु  
 ने उस से कहा लोमाइयों के भट और आकाश के पक्षियों  
 के बसेरे होते हैं पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की  
 ५९ भी जगह नहीं । उस ने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले

(१) यू० । सु० ।

उस ने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता  
 को गाड़ दूं । उस ने उस से कहा मेरे हुआं को अपने ६०  
 मेरे हुआं को गाड़ने दे पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य  
 की कथा सुना । एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे ६१  
 ही लूंगा पर पहिले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों  
 से विदा हो आऊं । यीशु ने उस से कहा जो कोई अपना ६२  
 हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के  
 राज्य के योग्य नहीं ॥

## १० और इन बातों के पीछे प्रभु ने सत्तर

और मनुष्य ठहराए और जिस  
 जिस नगर और जगह वह आप जाने पर था वहां उन्हें  
 दो दो करके अपने आगे भेजा । और उस ने उन से २  
 कहा पक्के खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े इसलिये खेत  
 के स्वामी से बिना करा कि वह अपने खेत काटने को  
 मजदूर भेज दे । जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाईं ३  
 भेड़ियों के बीच में भेजता हूं । न बटुआ न भोली ४  
 न जूते लाओ और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो ।  
 जिस किसी घर में जाओ पहिले कहो कि इस घर पर ५  
 कल्याण हो । यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा ६  
 तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा नहीं तो तुम्हारे  
 पास लौट आएगा । उसी घर में रहो और जो कुछ उन ७  
 से मिले वही खाओ पीओ क्योंकि मजदूर को अपनी  
 मजदूरी मिलनी चाहिए घर घर न फिरना । और जिस ८  
 नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें तो जो  
 कुछ तुम्हारे साम्हने रखवा जाए खाओ । वहां के बीमारों ९  
 को चंगा करो और उन से कहो कि परमेश्वर का राज्य  
 तुम्हारे निकट आ पहुंचा है । पर जिस नगर में जाओ १०  
 और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उस के बाजारों  
 में जाकर कहो कि, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे ११  
 पांवों में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं तौ भी  
 यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ  
 पहुंचा है । मैं तुम से कहता हूं कि उस दिन उस नगर १२  
 की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी । हाय १३  
 गुराजीन हाय बैतसेदा जो सामर्थ के काम तुम में किए  
 गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर  
 और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते । पर न्याय १४  
 के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा सहने  
 योग्य होगी । और हे कफरनहून क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा १५  
 किया जाएगा तू तौ अधोलोक तक नीचे जाएगा । जो १६  
 तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है और जो तुम्हें  
 तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है और जो मुझे

तुच्छ जानता है वह मेरे भोजनेवाले को तुच्छ जानता है ॥

१७ वे सत्तर आनन्द से फिर आकर कहने लगे हे प्रभु

१८ तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है । उस ने उन से कहा मैं शैतान को विजली की नाईं स्वर्ग से गिरा

१९ हुआ देख रहा था । देखो मैं ने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि

२० न होगी । तौभी इस से आनन्द मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है पर इस से आनन्द हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं ।

२१ उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनन्द से भर गया और कहा हे पिता स्वर्ग और पृथिवी के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रक्खा और बालकों पर प्रगट किया हां हे पिता क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा ।

२२ मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सीखा है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है केवल पिता और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता केवल पुत्र और वह जिस

२३ पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहें । और चेलों की और फिर कर निराले में कहा, धन्य हैं वे आंखें जो ये बातें

२४ जां तुम देखते हो देखती हैं । क्योंकि मैं तुम से कहूँ कि बहुत से नाबियों और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखें और जो बातें तुम सुनते हो सुनें पर न सुनें ॥

२५ और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उस की परीक्षा करने लगा कि हे गुरु अनन्त जीवन का

२६ वारिस होने के लिये मैं क्या करूँ । उस ने उस से कहा

२७ कि व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है । उस ने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे जी और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने

२८ पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख । उस ने उस से कहा

२९ तू ने ठीक उत्तर दिया यही कर तो तू जीएगा । पर उस ने अपनी तईं धर्मां ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा

३० तो मेरा पड़ोसी कौन है । यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो का जा रहा था कि डाकुओं ने धरकर उस के कपड़े उतार लिए और मारपीट कर

३१ उसे अधमुआ छोड़ चले गए । और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था पर उसे देख के कतरा

३२ कर चला गया । इसी रीति से एक लेवी उस जगह

३३ आया वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया । पर

एक सामरी बटोही वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया । और उस के पास आकर और उस के

३४ घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उस की

३५ सेवा टहल की । दूसरे दिन उस ने दो दीनार<sup>१</sup> निकालकर भटियारे को दिए और कहा इस की सेवा टहल करना

और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा । अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था

३६ इन तीनों में से उस का पड़ोसी कौन ठहरा । उस ने कहा ३७ वही जिस ने उस पर तरस खाया । यीशु ने उस से कहा जा तू भी ऐसा ही कर ॥

फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया ३८ और मरथा नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा । और मरियम नाम उस की एक बहिन थी वह प्रभु के

३९ पांवों के पास बैठकर उस का वचन सुनती थी । पर मरथा सेवा करते करते घबरा गई और उस के पास

४० आकर कहने लगी हे प्रभु क्या तुझे कुछ सोच नहीं कि मेरी बहिन ने मुझे सेवा करने के लिये अकेली छोड़ दी है सो उस से कह कि मेरी सहायता करे । प्रभु ने उसे

४१ उत्तर दिया मरथा हे मरथा तू बहुत बातों के लिये चिन्ता करती और घबराती है । पर एक बात<sup>२</sup> अवश्य है और उस उत्तम भाग का मरथम ने चुन लिया है जो उस से छीना न जाएगा ॥

## ११. फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा

था । जब वह कर चुका तो उस के चेलों में से एक ने उस से कहा हे प्रभु जैसे थूहना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे हां तू

भी हमें सिखा दे । उस ने उन से कहा जब तुम प्रार्थना

२ करो तो कहो हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए । हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया

३ कर । और हमारे पापों का क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न ला ॥

और उस ने उन से कहा तुम में से कौन है कि ५ उस का एक मित्र हो और वह आधी रात को उस के पास जाकर उस से कहे कि हे मित्र मुझे तीन रोटियां दे<sup>३</sup> । क्योंकि एक बटोही मित्र मेरे पास आया है और

६ उस के आगे रखने को मेरे पास कुछ नहीं । और वह ७

(१) देखो मत्ती १८ : २८ ।

(२) या० । पर थोड़ी या एक ही वस्तु अवश्य है ।

(३) पू० । उधार दे ।

भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख न दे अब तो द्वार बन्द है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं सो मैं उठकर तुम्हें दे नहीं सकता । मैं तुम से कहता हूँ यदि उस का मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तौभी उस के लाज छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी दरकार हों उतनी उठकर देगा । और मैं तुम से कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा दूँदो तो तुम पाओगे खटखटाओ तो तुम्हारे लिये खोला जाएगा । क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो दूँदता है वह पाता है और जो खटखटाता है उस के लिए खोला जाएगा ।

११ तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उस का पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे साँप दे या अण्डा मांगे तो उसे बिच्छू दे । सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगनेवालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा ॥

१४ फिर वह एक गूंगे दुष्टात्मा को निकाल रहा था । जब दुष्टात्मा निकल गया तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचम्भा किया । पर उन में से कितनों ने कहा यह तो शैतान नाम दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं का निकालता है । औरों ने उस की परीक्षा करने को उस से आकाश का एक चिन्ह मांगा । पर उस ने उन के मन की बातें जानकर उन से कहा जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है और जिस घर में फूट होता है वह नाश हो जाता है । और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उस का राज्य क्योंकर बना रहेगा । क्योंकि तुम भरो बिषय तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है । भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं का निकालता हूँ तो तुम्हारे सन्तान किस की सहायता से निकालते हैं ।

२० इसलिये वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे । पर यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्माओं का निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा ।

२१ जब बलवन्त मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उस की संपत्ति बची रहती है ।

२२ पर जब उस से बढ़ कर कोई और बलवन्त चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उस के वे हथियार जिन पर उस का भरोसा था छीन लेता और उस की संपत्ति लूट कर वांटता है । जो भरो साथ नहीं वह भरो

(१) थू० बाल जबूल ।

(२) थू० जंगली ।

विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बियराता है । जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है तो सूखी जगहों में विश्राम दूँदता फिरता है और जब नहीं पाता तो कहता है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकला था लौट जाऊँगा । और आकर उसे भाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाता है । तब वह जाकर अपने से और बुरे सात आत्माओं को अपने साथ ले आता है और वे उस में पैठकर बास करते हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो जाती है ॥

जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊँचे शब्द से कहा धन्य वह गर्भ जिस में तू रहा और वे स्तन जो तू ने चूसे । उस ने कहा हाँ पर धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं ॥

जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा कि इस समय के लोग बुरे हैं वे चिन्ह दूँदते हैं पर यूनस के चिन्ह को छोड़ कोई चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा । जैसा यूनस नीनवे के लोगों के लिये चिन्ह ठहरा वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस समय के लोगों के लिए ठहरेंगा । दक्खिन की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी क्योंकि वह सुलैमान का ज्ञान सुनने का पृथिवी की छोर से आई और देखो यहाँ वह है जो सुलैमान से भी बड़ा है । नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने यूनस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहाँ वह है जो यूनस से भी बड़ा है ॥

कोई मनुष्य दिया बार के तलघरे में या पैमाने के नाँचे नहीं रखता पर दीवट पर कि भीतर आनेवाले उजाला पाएँ । तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है इसलिये जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है पर जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है । सो चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए । इसलिये यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उस का कोई भाग अंधेरा न रहे तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुम्हें उजाला देता है ॥

जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उस से बिनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा । फरीसी ने यह देखकर

(३) थू० पीढ़ी ।

(४) देखो मत्ता ५: २५ ।

- अचम्भा किया कि वह भोजन करने से पहिले नहीं  
 ३९ नहाया । प्रभु ने उस से कहा हे फरीसियो तुम कटेरे  
 और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो पर तुम्हारे  
 ४० भीतर अधेर और दुष्टता भरी है । हे निर्बुद्धियो जिस ने  
 बाहर का भाग बनाया क्या उस ने भीतर का भाग  
 ४१ नहीं बनाया । पर हां भीतरवाली वस्तुओं को दान कर  
 दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिये शुद्ध हो जाएगा ॥  
 ४२ पर हे फरीसियो तुम पर हाय तुम पोदीने और  
 सुदाब का और सब भांति के साग पात का दसवां अंश  
 देते हो पर न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते  
 हो । चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न  
 ४३ छोड़ते । हे फरीसियो तुम पर हाय तुम सभाओं में मुख्य  
 ४४ मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो । हाय  
 तुम पर क्योंकि तुम उन छिपी क्रबरेणों के समान हो जिन  
 पर लोग चलते हैं पर नहीं जानते ॥  
 ४५ तब एक व्यवस्थापक ने उस को उत्तर दिया कि हे  
 गुरु इन बातों के कहने से तू हमारी निन्दा करता है ।  
 ४६ उस ने कहा हे व्यवस्थापके तुम पर भी हाय तुम ऐसे  
 बोझ जिन को उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो पर  
 तुम आप उन बोझों को अपनी एक उगली से भी नहीं  
 ४७ छूते । हाय तुम पर तुम उन नबियों की क्रबरेणें बनाते हो  
 ४८ जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था । सो तुम  
 गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों में सम्मत हो  
 क्योंकि इन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उन की  
 ४९ क्रबरेणें बनाते हो । इसलिये परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा  
 है कि मैं उन के पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगी और  
 वे उन में से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को  
 ५० सताएंगे । कि जितने नबियों का खून जगत की उत्पत्ति  
 से बहाया गया है सब का लेखा इस समय के लोगों?  
 ५१ से लिया जाय, हाबील के खून से लेकर ज़करयाह के  
 खून तक जो बेदी और मन्दिर<sup>२</sup> के बीच में घात किया  
 गया । मैं तुम से सच कहता हूँ उस का लेखा इसी समय  
 ५२ के लोगों? से लिया जाएगा । हाय तुम व्यवस्थापकों पर  
 कि तुम ने ज्ञान की कुंजी ले तो ली पर तुम ने आप ही  
 प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करनेवालों को भी रोका ॥  
 ५३ जब वह वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी  
 बहुत पीछे पड़ के छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों  
 ५४ की चर्चा करे । और उस की घाँत में लगे रहे कि उस  
 के मुँह की कोई बात पकड़े ॥

(१) यू० । पीदी । (२) यू० । पवित्र स्थान ।

१२. इतने में जब हज़ारों की भीड़ लग गई

यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा  
 पड़ता था तो वह सब से पहिले अपने चेलों से कहने  
 लगा कि फरीसियों के कपटरूपी खमीर से चौकस रहना ।  
 कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है २  
 जो जाना न जाएगा । इसलिये जो कुछ तुम ने अधेरे ३  
 में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा । और जो तुम ने  
 काठरियों में कानों कान कहा है वह काठों पर प्रचार  
 किया जाएगा । पर मैं तुम से जो मरे मित्र हो कहता हूँ ४  
 कि जो शरीर को घात करते हैं पर उस के पीछे और  
 कुछ नहीं कर सकते उन से न डरो । मैं तुम्हें चिंताता हूँ ५  
 तुम्हें किस से डरना चाहिए । घात करने के पीछे जिस  
 का नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो वरन ६  
 मैं तुम से कहता हूँ उसी से डरो । क्या दो पैसे की पांच ६  
 गौरैया नहीं बिकती तौभी परमेश्वर उन में से एक को भी  
 नहीं भूलता । वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने ७  
 हुए हैं सो डरो नहीं तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो । मैं ८  
 तुम से कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान ले  
 उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने ९  
 मान लेगा । पर जो मनुष्यों के सामने मुझे नकारे वह ९  
 परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने नकारा जाएगा । जो कोई १०  
 मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कह उस का वह  
 अपराध क्षमा किया जाएगा पर जो पवित्र आत्मा की  
 निन्दा करे उस का अपराध क्षमा न किया जाएगा । जब ११  
 लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के  
 सामने ले जाए तो चिन्ता न करना कि किस रीति से या  
 क्या उत्तर दे या क्या कहें । क्योंकि पवित्र आत्मा उसी १२  
 घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए ॥  
 फिर भीड़ में से किसी ने उस से कहा हे गुरु मरे १३  
 भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे । उस ने १४  
 उस से कहा हे मनुष्य किस ने मुझे तुम्हारा न्यायी या  
 बांटनेवाला ठहराया । और उस ने उन से कहा चौकस १५  
 रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए  
 रखना क्योंकि किसी का जीवन उस की संपत्ति को  
 बहुतायत से नहीं होता । उस ने उन से एक दृष्टान्त १६  
 कहा कि किसी धनवान् की भूमि में बड़ी उपज हुई ।  
 तब वह अपने मन में विचार करने लगा क्या करूँ १७  
 क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपना अनादि रक्खूँ ।  
 और उस ने कहा मैं यह करूँगा मैं अपनी बखारियां १८  
 तोड़ कर उन से बड़ी बनाऊँगा । और वहाँ अपना सब १९  
 अन्न और अपनी संपत्ति रक्खूँगा । और अपने प्राण से  
 कहूँगा हे प्राण तेरे पास बहुत बरसों के लिये बहुत

- २० संपत्ति रक्खी है चैन कर त्वा पी सुख से रह । परन्तु परमेश्वर ने उस से कहा हे मूर्ख इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा तब जो कुछ तू ने इकट्ठा किया है वह किस का होगा । ऐसा ही वह भी है जो अपने लिये धन बटोरता परन्तु परमेश्वर के लेखे धनी नहीं ॥
- २१ फिर उस ने अपने चेलों से कहा इसलिये मैं तुम से कहता हूँ अपने प्राण की चिन्ता न करो कि हम क्या खाएंगे न शरीर की कि क्या पहिनेंगे । क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है । कौवों को देख लो । वे न बोते हैं न लवते उन के न भएडार और न खत्ता है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है । तुम पक्षियों से कितने बढ़कर हो । तुम में से कौन है जो चिन्ता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है । सो यदि तुम छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिये क्यों चिन्ता करते हो । सोसनों पर ध्यान करो वे कैसे बढ़ते हैं वे न मिहनत करते न कातते हैं पर मैं तुम से कहता हूँ कि सुलैमान भी अपने सारे विभव में उन में से एक के बराबर पहिने हुए न था । यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में भोंकी जाएगी ऐसा पहिनाता है तो हे अल्प विश्वासियों वह तुम्हें क्यों न पहिनाएगा ।
- २९ तुम इस बात की खोज में न रहे कि क्या खाएंगे और क्या पीएंगे और न सन्देह करो । जगत की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें ये वस्तुएं चाहिएं । पर उस के राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएंगी । हे छोटे भुएड मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे । अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिये ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते और स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं जिस के निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता । क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा ॥
- ३५ तुम्हारी कमरें बंधी रहें और दिये जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी का बाट देख रहे हैं कि वह ब्याह से कब लौटेगा कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरन्त उस के लिये खोल दें । धन्य हैं वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए मैं तुम से सच कहता हूँ वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने का बैठाएगा और पास आकर उन की सेवाटहल करेगा ।

(१) यू० । हाथ ।

यदि वह दूसरे पहर या तीसरे पहर आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं । तुम यह जान रक्खो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता । तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा ॥

तब पतरस ने कहा हे प्रभु क्या यह दृष्टान्त तू हम से या सब से कहता है । प्रभु ने कहा वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान् भएडारी कौन है जिम का स्वामी उसे नौकर चाकरो पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे । धन्य है वह दास जिसे उस का स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए । मैं तुम से सच कहता हूँ वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा । पर यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वह उस की बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उस का भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा । सो वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा न उस की इच्छा के अनुसार चला बहुत मार खाएगा । पर जो न जानता था और मार खाने के योग्य काम किए वह थोड़ी मार खाएगा सो जिसे बहुत दिया गया है उस से बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सोंपा गया है उस से बहुत मांगेंगे ॥

मैं पृथिवी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती । मुझे एक बर्पातिसमा लेना है और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में हूँ । क्या तुम समझते हो कि मैं पृथिवी पर मिलाप कराने आया हूँ मैं तुम से कहता हूँ नहीं बरन फूट । क्योंकि अब से एक घर में पांच जन आपस में फूट रक्खेंगे तीन दो से और दो तीन से । पिता पुत्र से और पुत्र पिता से फूट रक्खेगा मां बेटी से और बेटी मां से साम बहू से और बहू सास से फूट रक्खेगी ॥

और उस ने भीड़ से भी कहा जब बादल को पच्छिम से उठते देखने हो तो तुरन्त कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है । और जब दक्खिना चलती देखते हो तो कहते हो कि लूह चलेगी और ऐसा ही होता है । हे कर्पाटयो तुम भरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो पर इस समय के विषय क्यों नहीं जानते । और तुम आप ही विचार क्यों नहीं कर

५८ लेते कि उचित क्या है । जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उस से छूटने का यत्न कर ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे प्यादे को सौपे ५९ और प्यादा तुझे बन्धन में डाल दे । मैं तुझ से कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा ॥

### १३ उस समय कितने लोग आ पहुंचे और

उस से उन गलीलियों की चर्चा

करने लगे जिन का लोहू पीलातुस ने उन ही के बलि-  
२ दानों के साथ मिलाया था । यह सुन उस ने उन को उत्तर दे कहा क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी बिपत्ति ३ पड़ी । मैं तुम से कहता हूँ कि नहीं पर यदि तुम मन न ४ फिराओ तो तुम सब इसी रीति से नाश होगे । या क्या तुम समझते हो कि वे अठारह जन जिन पर शीलोह का गुम्मत गिरा और वे दब कर मर गए यरूशलेम के ५ और सब रहनेवालों से बढ़कर अपराधी थे । मैं तुम से कहता हूँ कि नहीं पर यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नाश होगे ॥  
६ फिर उस ने यह दृष्टान्त भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था ७ वह उस में फल दूढ़ने आया पर न पाया । तब उस ने बारी के रखवाले से कहा देख तीन बरस से मैं इस अंजीर के पेड़ से फल दूढ़ने आता हूँ पर नहीं पाता ८ इसे काट डाल यह भूमि को भी क्यों रोके । उस ने उस को उत्तर दिया कि हे स्वामी इसे इस बरस तो और ९ रहने दे कि मैं इस के चारों ओर खोद कर खाद डालूँ । सो आगे को फले तो भला नहीं तो पीछे उसे काट डालना ॥  
१० विश्राम के दिन वह एक सभा के घर में उपदेश ११ कर रहा था । और देखो एक स्त्री थी जिसे अठारह बरस से एक दुर्बल करनेवाला दुष्टात्मा लगा था और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी न हो १२ सकती थी । यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा हे १३ नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई । तब उस ने उस पर हाथ रखे और वह तुरन्त सीधी हो गई और परमे- १४ श्वर की बड़ाई करने लगी । इसलिये कि यीशु ने विश्राम के दिन उसे अच्छा किया था इस कारण सभा का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा छः दिन हैं जिन में काम करना चाहिए सो उनही दिनों में आकर १५ अच्छे होओ पर विश्राम के दिन में नहीं । यह सुन

प्रभु ने उत्तर दे कहा हे कपटियो क्या विश्राम के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गदहे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता । और क्या उचित १६ न था कि यह स्त्री जो इब्राहीम की बेटी है जिसे शैतान ने अठारह बरस से बांध रक्खा था विश्राम के दिन इस बन्धन से छुड़ाई जाती । जब उस ने ये बातें कहीं तो १७ उस के सब विरोधी लजा गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनन्द हुई ॥

फिर उस ने कहा परमेश्वर का राज्य किस के समान १८ है और मैं उस की उपमा किस से दूँ । वह राई १९ के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उस की डालियों पर बसेरा किया । उस ने फिर कहा मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किस २० से दूँ । वह खमीर के समान है जिस को किसी म्ना ने २१ लेकर तीन पसेरी आटे में मिलाया और होत होत सब खमीर हो गया ॥

वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश २२ करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था । और २३ किसी ने उस से पूछा हे प्रभु क्या उद्धार पानेवाले थोड़े हैं । उस ने उन से कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का २४ यत्न करो क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि बहुतों प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे । जब घर का म्वामी २५ उठकर द्वार बन्द कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगे हे प्रभु हमारे लिये खोल दे और वह उत्तर दे मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कहां के हो । तब तुम कहने लगोगे कि हम ने तेरे सामने खाया पीया २६ और तू ने हमारे बाजारों में उपदेश किया । पर वह २७ कहेगा मैं तुम से कहता हूँ मैं नहीं जानता तुम कहां से हो हे कुकर्म करनेवालो तुम सब मुझ से दूर हो । वहां २८ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहीम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आपको बाहर निकाले हुए देखोगे । और पूरव पच्छिम उत्तर दक्खिन से लोग २९ आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे । और ३० देखो कितने पिछले हैं जो पहिले होंगे और कितने पहिले हैं जो पिछले होंगे ॥

उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उस से कहा ३१ यहां मे निकल कर चला जा क्योंकि हेरोदेस तुम्हें मार डालना चाहता है । उस ने उन से कहा जाकर ३२ उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता

३३ हूँ और तीसरे दिन पूरा करूंगा। तौ भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है क्योंकि हो नहीं  
 ३४ सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम हे यरूशलेम तू जो नबियों को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरबाह करती है कितनी ही बार मैं ने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं पर तुम ने न चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ छोड़ा जाता है और मैं तुम से कहता हूँ जब तक तुम न कहोगे कि धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है तब तक तुम मुझे कभी न देखोगे ॥

**१४. फिर** वह विश्राम के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर

२ में रोटी खाने गया और वे उस की तक में थे। और देखा एक मनुष्य उस के सामने था जिसे जलन्धर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा क्या विश्राम के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं पर वे चुप रहे। तब उस ने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया। और उन से कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिस का गदहा या बैल कूप में गिरे और वह विश्राम के दिन उमें तुरन्त न निकाल ले। वे इन बातों का उत्तर न दे सके ॥  
 ७ जब उस ने देखा कि नेवतहरी लोग क्योंकि मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं तो एक दृष्टान्त देकर उन से कहा। जब कोई तुम्हें ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठ ऐसा न हो कि उस ने तुम्ह से भी ९ किसी बड़े को नेवता दिया हो। और जिस ने तुम्हें और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुम्ह से कहे कि इस को जगह दे और तब तुम्हें लज्जा खाकर सब से नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सब से नीची जगह जा बैठ कि जब वह जिस ने तुम्हें नेवता दिया है आए तो तुम्ह से कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ तब तेरे साथ बैठनेवालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा ॥  
 १२ तब उस ने अपने नेवता देनेवाले से भी कहा जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुम्बियों या धनवान् पड़ोसियों को न बुला ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें नेवता दें और तेरा बदला १३ हो जाए। पर जब तू भोज करे तो कंगालों दुएडों

लंगडों और अंधों को बुला। तब तू धन्य होगा क्योंकि उन के पास तुम्हें बदला देने का कुछ नहीं पर तुम्हें धर्मियों के जी उठने पर बदला मिलेगा ॥

उस के साथ भोजन करनेवालों में से एक ने ये बातें सुनकर उस से कहा धन्य वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उस ने उस से कहा किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उस ने अपने दास के हाथ नेवतहरियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब जमा मांगने लगे पहिले ने उस से कहा मैं ने खेत मोल लिया है और चाहिए कि उसे देखूं मैं तुम्ह से बिनती करता हूँ मुझे जमा करा दे। दूसरे ने कहा मैं ने पांच जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ मैं तुम्ह से बिनती करता हूँ मुझे जमा करा दे। एक और ने कहा मैं ने ब्याह किया है इसलिये मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें सुनाई तब घर के स्वामी ने क्रोध कर अपने दास से कहा नगर के बाजारों और गलियों में तुरन्त जाकर कंगालों दुएडों लंगडों और अंधों को यहां ले आ। दास ने फिर कहा हे स्वामी जैसे तू ने कहा था वैसे ही हुआ है और अब भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले आ कि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि उन नेवते हुएों में से कोई मेरी जेवनार न चखेगा ॥

और जब बड़ी भीड़ उस के साथ जा रही थी तो उस ने पीछे फिरकर उन से कहा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़केवालों और भाइयों और बहिनों बरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाये और मेरे पीछे न आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहिले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं। ऐसा न हो कि जब नेव डाल कर तैयार न कर सके तो सब देखनेवाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे कि, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से लड़ने जाता हो और पहिले बैठकर विचार न कर ले कि जो बीस हजार लेकर मुझ पर चढ़ा आता है क्या मैं दस हजार लेकर उस का सामना कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं ३२

(१) या। बिन लाने से मत छोड़।



तो उस के दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप  
३३ चाहेगा । इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब  
कुछ त्याग न करे वह मेरा चेला नहीं हो सकता ।  
३४ नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए  
तो वह किस से स्वादित किया जाएगा । वह न भूमि के  
३५ न खाद के लिये काम आता है । लोग उसे बाहर फेंक  
देते हैं । जिस के सुनने के कान हों वह सुन ले ॥

## १५. सब महसूल लेनेवाले और पापी उस के पास आते थे कि उस की सुनें ।

- २ और फरोसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता और उन के साथ खाता है ॥
- ३, ४ तब उस ने उन से यह दृष्टान्त कहा । तुम में से कौन है जिस की सौ भेड़ें हों और उन में से एक खो जाए तो वह निजानवे को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई ५ को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे । और जब मिल जाती है तो वह आनन्द से उसे कांधे पर उठा ६ लेता है । और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है मेरे साथ आनन्द करो क्योंकि ७ मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई । मैं तुम से कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय स्वर्ग में इतना आनन्द होगा जितना कि निजानवे ऐसे घर्मियों के विषय न होता जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं ॥
- ८ या कौन ऐसी स्त्री होगी जिस के पास दस सिक्के हों और एक खो जाए तो वह दिया बार घर बुहार जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे ।
- ९ और जब मिल जाता है तो वह सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है, मेरे साथ आनन्द करो
- १० कि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया । मैं तुम से कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनन्द होता है ॥
- ११ फिर उस ने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे ।
- १२ उन में से छुटके ने पिता से कहा है पिता संपत्ति में से
- १३ जो भाग मेरा हो वह मुझे दे । उस ने उन को अपनी संपत्ति बांट दी । और बहुत दिन न बीते कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और १४ वहां लुचपन में अपनी संपत्ति उड़ा दी । जब वह सब

कुछ उठा चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया । और वह उस देश के निवासियों १५ में से एक के यहां जा पड़ा उस ने उसे अपने खेतों में सूअर चराने को भेजा । और वह चाहता था कि उन १६ फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ न देता था । जब वह अपने आपे में १७ आया तब वह कहने लगा मेरे पिता के कितने मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मरता हूं । मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और १८ उस से कहुंगा हे पिता मैं ने स्वर्ग के विरोध में और तेरे देखते पाप किया है । अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा १९ पुत्र कहलाऊं मुझे अपने एक मज़दूर की नाई लगा ले । तब वह उठकर अपने पिता के पास चला पर वह अभी २० दूर ही था कि उस के पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा । पुत्र २१ ने उस से कहा हे पिता मैं ने स्वर्ग के विरोध में और तेरे देखते पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं । पर पिता ने अपने दासों से कहा २२ भट अच्छे से अच्छा पहिनावा निकाल कर उसे पहिनाओ और उस के हाथ में अंगूठी और पावों में जूती पहिनाओ । और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो और २३ हम खाएं और आनन्द करें । क्योंकि मेरा यह पुत्र मरा २४ था फिर जी गया है खो गया था अब मिला है तब वे आनन्द करने लगे । पर उस का जेठा पुत्र खेत में था २५ और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना । और उस ने एक २६ टहलुए को बुलाकर पूछा यह क्या हो रहा है । उस ने २७ उस से कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है इसलिये कि उसे भला चंगा पाया । यह सुन वह क्रोध से भर गया और भीतर २८ जाना न चाहा पर उस का पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा । उस ने पिता को उत्तर दिया कि देख मैं २९ इतने बरस से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी तेरी आज्ञा न टाली तौभी तू ने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनन्द करता । पर जब तेरा यह पुत्र जिस ने तेरी संपत्ति वेश्याओं में ३० उड़ा आया तो उस के लिये तू ने पला हुआ बछड़ा कटवाया । उस ने उस से कहा पुत्र तू सदा मेरे साथ है ३१ और जो कुछ मेरा है सब तेरा ही है । पर आनन्द करना ३२ और मगन होना चाहिए था क्योंकि यह तेरा भाई मरा था फिर जी गया खो गया था अब मिला है ॥

(१) यू० । टाखना । उसका मोल लगभग आठ आने के था ।

१६. फिर उस ने चेलों से भी कहा किसी धनवान् का एक भण्डारी था और लोगों ने उस के सामने उस पर यह दोष लगाया २ कि यह तेरी संपत्ति उड़ाए देता है । सो उस ने उसे बुलाकर कहा यह क्या है जो मैं तेरे विषय सुनता हूँ । अपने भण्डारीपन का लेखा दे क्योंकि तू आगे को ३ भण्डारी नहीं रह सकता । तब भण्डारी सोचने लगा मैं क्या करूँ क्योंकि मेरा स्वामी भण्डारी का काम मुझ से छीने लेता है मिट्टी तो मुझ से खोदी नहीं जाती और ४ भीख मांगने से मुझे लाज आती है । मैं समझ गया कि क्या करूँगा इसलिये कि जब मैं भण्डारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें । ५ और उस ने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहिले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है । उस ने कहा सौ मन तेल तब उस ने उस से कहा कि अपनी टीप ले और बैठकर तुरन्त पचास लिख दे । फिर दूसरे से पूछा तुझ पर क्या आता है उस ने कहा सौ मन गेहूँ तब उस ने उस से कहा अपनी टीप लेकर अस्सी लिख दे । स्वामी ने उस अधर्मी भण्डारी को सराहा कि उस ने चतुराई से काम किया है क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ ज्योति ९ के लोगों से रीति व्यवहारों में बहुत चतुर हैं । और मैं तुम से कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिये मित्र बना लो कि जब वह जाता रहे तो ये तुम्हें अनन्त १० निवासों में ले लें । जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी ११ है वह बहुत में भी अधर्मी है । इसलिये जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन साँपेगा । और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो १२ जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा । कोई टहलुआ दे स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे का हलका जानेगा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते ॥ १४ फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों १५ में उड़ाने लगें । उस ने उन से कहा तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो । परन्तु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है । जो मनुष्यों के लोखे महान् १६ है वह परमेश्वर के निकट धनीना है । व्यवस्था और नयी यहूदा तक रहे तब से परमेश्वर के राज्य का

मुसमाचार सुनाया जाता है और हर कोई उस में बल से प्रवेश करता है । आकाश और पृथिवी का टल जाना १७ व्यवस्था के एक बिन्दु के मिट जाने से सहज है । जो कोई अपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से न्याह करता है वह व्यभिचार करता है और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से न्याह करता है वह भी व्यभिचार करता है ॥

एक धनवान् मनुष्य था जो दैजनी कपड़े और १९ मलमल पहिनता और दिन दिन सुख बिलास और धूम धाम के साथ रहता था । और लाज़र नाम एक २० कंकाल घावों से भरा हुआ उस की डेवढी पर छोड़ दिया जाता था । और चाहता था कि धनवान् का भोज पर २१ की जूठन से अपना पेट भरे वरन कुत्ते भी आकर उस के घावों को चाटते थे । वह कंकाल मर गया और स्वर्ग २२ वृत्तों ने उस लेकर इब्राहीम की गोद में पहुँचाया और वह धनवान् भी मरा और गाड़ा गया । और अधोलोक २३ में उस ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से इब्राहीम की गोद में लाज़र को देखा । और २४ उस ने पुकार कर कहा हे पिता इब्राहीम मुझ पर दया करके लाज़र को भेज दे कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ । पर इब्राहीम ने कहा हे २५ पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीते जी अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाज़र बुरी वस्तुएं पर अब वह यहाँ शान्ति पा रहा है और तू तड़प रहा है । और इन २६ सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी खड ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे न जा सकें और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके । उस ने कहा तो हे पिता मैं तुझ २७ से बिनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज । क्योंकि मेरे पांच भाई हैं वह उन के सामने इन बातों २८ का गवाही दे ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएँ । इब्राहीम ने उस से कहा उन के पास मूसा २९ और नबियों की पुस्तकें हैं वे उन की सुनें । उस ने कहा ३० नहीं हे पिता इब्राहीम पर यदि कोई मरे हुआओं में से उन के पास जाए तो वे मन फिराएंगे । उस ने उस से कहा ३१ कि जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो यदि मेरे हुआओं में से कोई जी भी उठे तौभी उस की न मानेंगे ॥

१७. फिर उस ने अपने चेलों से कहा हो नहीं सकता कि ठोकर न आएँ पर हाय उस मनुष्य पर जिस के द्वारा वे आती हैं । जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उस के लिये यह भला होता कि चक्की का पाट उस के २

गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाला जाता । सचेत रहे यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पकृताए तो उसे क्षमा कर । यदि दिन भर में वह सात बार तेरा अपराध करे और सातों बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पकृताता हूँ तो उसे क्षमा कर ॥

५ तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा । प्रभु ने कहा कि यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता । पर तुम में से ऐसा कौन है जिस का दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो और जब वह खेत से आए तो उस से कहे तुरन्त आकर भोजन करने बैठ । और यह न कहे कि मेरी बियारी बना और जब तक मैं खाऊँ पीऊँ तब तक कमर बांधकर मेरी टहल कर इस के पीछे तू खा पी लेना । क्या वह उस दास का निहारा मानेगा कि उस ने वे ही काम किए जिस की आज्ञा दी गई थी । इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके जिस की आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है ॥

११ वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था । किसी गांव में पैठते समय उसे दस कोढ़ी मिले और उन्होंने ने दूर खड़े होकर, ऊंचे शब्द से कहा हे यीशु हे स्वामी हम पर दया कर । उस ने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने तर्ई याजकों को दिखाओ और जाते जाते वे शुद्ध हो गए । तब उन में से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा । और यीशु के पांवों पर मुँह के बल गिर कर उस का धन्यवाद करने लगा और यह सामरी था । इस पर यीशु ने कहा क्या दसों शुद्ध न हुए तो फिर वे नौ कहाँ हैं । क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता । तब उस ने उस से कहा उठ कर चला जा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है ॥

२० जब फरीसियों ने उस से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कय आएगा तो उस ने उन को उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता । और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहां या वहां है क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है ॥

२१ और उस ने चेलों से कहा वे दिन आएंगे जिन

में तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन देखना चाहोगे और न देखने पाओगे । लोग तुम से कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है पर तुम चले न जाना और न उन के पीछे हो लेना । क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौन्धकर आकाश की दूसरी ओर चमकती है वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रगट होगा । पर पहिले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस समय के लाग उसे तुच्छ ठहराए । जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा । जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उन में ब्याह शादी होती थी तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया । और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे । पर जिस दिन लूत सदांम से निकला उस दिन आग और गन्धक आकाश से बरसी और सब को नाश किया, मनुष्य के पुत्र के प्रगट होने का दिन भी ऐसा ही होगा । उस दिन जो कोठे पर हो और उस का सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे । लूत की पत्नी को स्मरण रखो । जो ३२, ३३ कोई अपना प्राण बचाना चाहें वह उसे खाएगा और जो कोई उसे खोए वह उसे जीता रखेगा । मैं तुम से कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक खाट पर हांगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा । दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती हांगी एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी । यह सुन उन्होंने ने उस से पूछा, हे प्रभु यह कहाँ होगा उस ने उन से कहा जहां लोथ होगी वहां गिद्ध हकट्टे हांगे ॥

१८. फिर उस ने इस के विषय कि नित्य प्रार्थना करना और

हियाव न छोड़ना चाहिए उन से यह दृष्टान्त कहा, कि किसी नगर में एक न्यायी था जो न परमेश्वर से डरता और न किसी मनुष्य की चिन्ता करता था । और उसी नगर में एक विधवा भी थी जो उस के पास आ आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा । उस ने कितनी देर तक तो न माना पर पीछे अपने जी में कहा यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की चिन्ता करता हूँ । तौभी

(१) यह पद सब से पुराने हस्तलेखों में नहीं मिलता । दो जन खेत में हांगे एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा ।

यह बिधवा मुझे सताती रहती है इसलिए मैं उस का न्याय चुकाऊंगा ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अन्त ६ को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा सुनो कि यह ७ अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुएों का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उस की दुहाई देते रहते और क्या वह उन के विषय ८ देर करेगा। मैं तुम से कहता हूँ वह तुरन्त उन का न्याय चुकाएगा तौर्भा मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथिवी पर विश्वास पाएगा ॥

९ और उस ने कितनों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते १० थे यह दृष्टान्त कहा कि, दो मनुष्य मन्दिर में प्रार्थना करने गए एक फरीसी और दूसरा महसूल लेनेवाला। ११ फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यां प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करनेवाला अन्यायी और व्याभिचारी नहीं और न इस महसूल लेनेवाले के समान १२ हूँ। मैं अठवार में दो बार उपवास करता हूँ मैं अपनी १३ सारी कमाई का दसवा अंश देता हूँ। पर महसूल लेनेवाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आँखें उठाना भी न चाहा बरन अपना छाती पीट पीटकर कहा हे परमेश्वर १४ मुझ पापी पर दया कर<sup>१</sup>। मैं तुम से कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं पर यही मनुष्य धर्मा उहराया जाकर अपने घर गया क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा ॥

१५ फिर लोग अपने बच्चों को भी उस के पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे और चलो ने देखकर १६ उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो १७ क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक का नाई ग्रहण न करे वह उस में कभी प्रवेश करने न पाएगा ॥

१८ किसी सरदार ने उस से पूछा हे उत्तम गुरु अनन्त- १९ जीवन का अधिकारी होने के लिये क्या करू। यीशु ने उस से कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। कोई उत्तम २० नहीं केवल एक अर्थात् परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार न करना खून न करना और

चोरी न करना भूठी गवाही न देना अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उस ने कहा मैं तो २१ इन सब को लड़कपन से मानता आया हूँ। यह सुन २२ यीशु ने उस से कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी है अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुन कर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी २३ था। यीशु ने उसे देखकर कहा धनवानों का परमेश्वर २४ के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान् के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। और सुननेवालों ने कहा २५ तो किस का उद्धार हो सकता है। उस ने कहा जो मनुष्य २६ से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए २७ हैं। उस ने उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि २८ ऐसा कोई नहीं जिस ने परमेश्वर के राज्य के लिये घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के बालों को छोड़ दिया हो, और इस समय कई गुना अधिक न पाए ३० और परलोक में अनन्त जीवन ॥

उस ने बारहों का साथ लेकर उन से कहा देखो ३१ हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिये नबियों के द्वारा लिखी गईं वे सब पूरी ३२ होंगी। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ सीया जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उस का अपमान करेंगे और उस पर शूकेंगे। और उसे काँड़े मारेंगे और ३३ घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। और ३४ उन्होंने ने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उन से छिपी रही और जो कहा जाता था वह उन की समझ में न आया ॥

जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा ३५ सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख माग रहा था। और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ३६ यह क्या हो रहा है। उन्हो ने उस को बताया कि यीशु ३७ नासरी जा रहा है। तब उस ने पुकार के कहा हे यीशु दाऊद के सन्तान मुझ पर दया कर। जो आगे जाते ३८ थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद के सन्तान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर कहा उसे मेरे पास लाओ ४० और जब वह निकट आया तो उस ने उस से यह पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिये करूँ उस ने कहा ४१ हे प्रभु यह कि मैं देखने लगूँ। यीशु ने उस से कहा ४२ देखने लग तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है।

(१) या। प्रायश्चित्त के कारण मुझ पापी पर दया कर।

४३ और वह तुरन्त देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उस के पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की ॥

२ १६. वह यरीहो में आकर उस में जा रहा था । और देखो ज़कई नाम एक मनुष्य था जो महसूल लेनेवालों का सरदार और धनी था । वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है पर भीड़ के कारण देख न सकता था ४ क्योंकि नाटा था । तब उस को देखने के लिये वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि ५ वह उसी मार्ग से जाने का था । जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि कर उस से कहा है ज़कई भट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है । ६ वह भट उतर कर आनन्द से उसे अपने घर ले गया । ७ यह देखकर सब कुड़कुड़ाकर कहने लगे वह तो एक ८ पापी मनुष्य के यहां उतरा है । ज़कई ने खड़े हांकर प्रभु से कहा हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संगति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी से अन्याय करके कुछ ले ९ लिया तो चौगुना फेर देता हूँ । तब यीशु ने उस से कहा आज इस घर में उद्धार आया है इसलिये कि यह भी १० इब्राहीम का सन्तान है । क्योंकि मनुष्य का पुत्र खाए हुआ को ढूढ़ने और उन का उद्धार करने आया है ॥

११ जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उस ने एक दृष्टान्त कहा इसलिये कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रगट हुआ १२ चाहता है । सो उस ने कहा एक कुलीन मनुष्य दूर १३ देश जाता था कि राजपद पाकर फिर आए । और उस ने अपने दासों में से दस को बुलाकर उन्हें दस मुहरों दीं और उन से कहा मेरे लौट आने तक लेन देन १४ करना । पर उस के नगर के रहनेवाले उस से बैर रखते थे और उस के पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा १५ कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे । जब वह राजपद पाकर लौट आया तो उस ने अपने दासों को जिन्हें राकड़ दी थी अपने पास बुलवाया कि वह जाने कि उन्होंने ने लेन देन करने से क्या क्या कमाया । १६ तब पहिले ने आकर कहा हे स्वामी तेरी मोहर ने दस १७ और मोहरें कमाई । उस ने उस से कहा धन्य है उत्तम दास तुझे धन्य है तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला १८ अब दस नगरों पर अधिकार रख । दूसरे ने आकर कहा हे स्वामी तेरी मोहर ने पांच और मोहरें कमाई ।

उस ने उस से भी कहा तू भी पांच नगरों पर हाकिम १९ हो जा । तीसरे ने आकर कहा हे स्वामी देख तेरी २० मोहर यह है जिसे मैं ने अंगोछे में बांध रखी । क्योंकि २१ मैं तुझ से डरता था इसलिये कि तू कठोर मनुष्य है जो तू ने नहीं धरा उसे उठा लेता है और जो तू ने नहीं बोया उसे काटता है । उस ने उस से कहा हे दुष्ट दास २२ मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ । तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ जो मैं ने नहीं धरा उसे उठा लेता और जो मैं ने नहीं बोया उसे काटता हूँ । तो तू ने मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिऐ कि मैं २३ आकर ब्याज समेत ले लेता । और जो लोग निकट २४ खड़े थे उस ने उन से कहा वह मोहर उस से ले लो और जिस के पास दस मोहरें हैं उसे दे दो । उन्होंने ने २५ उस से कहा हे स्वामी उस के पास दस मोहरें तो हैं । मैं तुम से कहता हूँ कि जिस के पास है उसे दिया २६ जाएगा और जिस के पास नहीं उस से वह भी जो उस के पास है ले लिया जाएगा । पर मेरे उन बैरियों को २७ जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं यहां लाकर मेरे सामने घात करो ॥

ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उन के २८ आगे आगे चला ॥

और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और २९ बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उस ने अपने चेलों में से दो को यह कहके भेजा कि, सामने के गांव में जाओ ३० और उस में पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई चढ़ा नहीं बधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोलकर लाओ । और यदि कोई तुम से पूछे क्यों खोलते हो ३१ तो यों कह देना कि प्रभु को इस का प्रयोजन है । जो ३२ भेजे गये थे उन्होंने ने जाकर जैसा उस ने उन से कहा था वैसा ही पाया । जब वह गदही के बच्चे को खोल रहे थे ३३ तो उस के मालिकों ने उन से पूछा इस बच्चे को क्यों खोलते हो । उन्होंने ने कहा प्रभु को इस का प्रयोजन है । ३४ सो वे उस को यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े ३५ उस बच्चे पर डालकर यीशु को बैठाया । जब वह जा ३६ रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे । और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ के उतार ३७ पर पहुंचा तो चेलों की सारी मण्डली उन सब सामर्थ के कामों के लिये जो उन्होंने ने देखे थे आनन्दित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि, धन्य ३८ है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है स्वर्ग में शान्ति और आकाश में महिमा हो । तब भीड़ में से ३९

(१) यू० । ऊंचे से ऊंचे स्थान ।

- कितने फरीसी उस से कहने लगे हे गुरु अपने चेलों को  
 ४० हांट । उस ने उत्तर दिया कि मैं तुम से कहता हूँ यदि  
 ये चुप रहें तो पत्थर चिह्ना उठेंगे ॥
- ४१ जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस  
 ४२ पर रोया । और कहा क्या ही भला होता कि तू हां तू  
 ही इस दिन कुशल की बातें जानता पर अब वे तेरी  
 ४३ आंखों से छिपी हैं । वे दिन तो तुझ पर आएंगे कि तेरे  
 बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से  
 ४४ तुझे दबाएंगे । और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ  
 में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर न  
 छोड़ेंगे क्योंकि तू ने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि  
 की गई न पहिचाना ॥
- ४५ तब वह मन्दिर में जाकर बेचनेवालों को बाहर  
 ४६ निकालने लगा, और उन से कहा लिखा है कि मेरा  
 घर प्रार्थना का घर होगा पर तुम ने उसे डाकुओं की  
 खोह बना दिया है ॥
- ४७ वह मन्दिर में हर दिन उपदेश करता था और  
 महायाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश  
 ४८ करने का अवसर ढूँढते थे पर कुछ करने न पाए  
 क्योंकि सब लोग उस की सुनने में लौलीन थे ॥

## २०. एक दिन जब वह मन्दिर में लोगों

- को उपदेश देता और सुसमा-  
 चार सुना रहा था तो महायाजक और शास्त्री पुरनियों  
 २ के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे हमें  
 बता तू ये काम किस अधिकार से करता है और वह  
 ३ कौन है जिस ने तुझे यह अधिकार दिया है । उस ने  
 उन को उत्तर दिया मैं भी तुम से यह बात पूछता हूँ  
 ४ मुझे बताओ । यहूजा का अपतिसमा क्या स्वर्ग की  
 ५ ओर से या मनुष्यों की ओर से था । तब वे आपस में  
 कहने लगे यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह  
 ६ कहेगा फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यों न की । और  
 यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो सब लोग हमें  
 पत्थरबाह करेंगे क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यहूजा  
 ७ नहीं था । सो उन्होंने ने उत्तर दिया हम नहीं जानते कि  
 ८ वह कहाँ से था । यीशु ने उन से कहा तो मैं भी तुम  
 को नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से  
 करता हूँ ॥
- ९ तब वह लोगों से यह दृष्टान्त कहने लगा कि  
 किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को  
 उस का ठेका दे बहुत दिन तक परदेश में जा रहा ।  
 १० समय पर उस ने किसानों के पास एक दास को भेजा

कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें पर  
 किसानों ने उसे पीट कर छूँके हाथ लौटा दिया । फिर ११  
 उस ने एक और दास को भेजा और उन्होंने ने उसे भी  
 पीटकर और उस का अपमान करके छूँके हाथ लौटा  
 दिया । फिर उस ने तीसरा भेजा और उन्होंने ने उसे भी १२  
 घायल करके निकाल दिया । तब दाख की बारी के १३  
 स्वामी ने कहा मैं क्या करूँ मैं अपने प्रिय पुत्र को  
 भेजंगा क्या जाने वे उस का आदर करें । जब किसानों १४  
 ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे कि यह  
 तो बारिस है आओ हम उसे मार डालें की मीरास  
 हमारी हो जाए । और उन्होंने ने उसे दाख की बारी १५  
 से बाहर निकाल कर मार डाला । इसलिये दाख की  
 बारी का स्वामी उन से क्या करेगा । वह आकर उन १६  
 किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को  
 सौंपेगा । यह सुनकर उन्होंने ने कहा ऐसा न हो । उस ने १७  
 उन की ओर देखकर कहा क्या लिखा है कि जिम पत्थर  
 को राजों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा  
 हो गया । जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चूर हो १८  
 जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उस को पीस  
 डालेगा ॥

उसी घड़ी शास्त्रियों और महायाजकों ने उसे १९  
 पकड़ना चाहा क्योंकि समझ गए कि उस ने हम पर  
 यह दृष्टान्त कहा पर वे लोगों से डरे । और वे उस की २०  
 तक में लगे और भेदिण भेजे जो धर्म का भेष धरकर  
 उस की कोई न कोई बात पकड़ें कि उसे हाकिम के  
 हाथ और अधिकार में सौंप दें । उन्होंने ने उस से यह २१  
 पूछा कि हे गुरु हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और  
 सिखाता है और किसी का पक्षपात नहीं करता बरन  
 परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है । क्या हमें २२  
 कैसर को कर देना उचित है कि नहीं । उस ने उन की २३  
 चतुराई ताड़ के उन से कहा एक दीनार<sup>१</sup> मुझे  
 दिखाओ । इस पर किस की मूर्ति और नाम है । उन्होंने ने २४  
 कहा कैसर का । उस ने उन से कहा तो जो कैसर का २५  
 है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है पर-  
 मेश्वर को दो । वे लोगों के सामने उस बात को पकड़ २६  
 न सके बरन उस के उत्तर से अचम्भित होकर चुप रहे ॥

फिर सद्दुकी जो कहते हैं कि मरे हुआ का जी उठना २७  
 है ही नहीं उन में से कितनों ने उस के पास आकर  
 पूछा कि, हे गुरु मूसा ने हमारे लिये यह लिखा है कि २८  
 यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना

(१) देखो मत्तो १८ : २८ ।

सन्तान मर जाए तो उस का भाई उस की पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिये वंश उत्पन्न करे ।  
 २९ सो सात भाई थे पहिला भाई ब्याह करके बिना सन्तान  
 ३० मर गया । फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री को  
 ३१ ब्याह लिया । इसी रीति से सातों बिना सन्तान मर  
 ३२, ३३ गये । सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई । सो जी  
 उठने पर वह उन में से किस की पत्नी होगी क्योंकि वह  
 ३४ सातों की पत्नी हुई थी । यीशु ने उन से कहा कि इस  
 ३५ युग के सन्तानों में तो ब्याह शादी होती है । पर जो  
 लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग के और मरे हुआओं  
 का जी उठना प्राप्त करें उन में ब्याह शादी न  
 ३६ होगी । वे फिर मरने के भी नहीं क्योंकि वे स्वर्गदूतों  
 के समान होंगे और जी उठने के सन्तान होने से पर-  
 ३७ मेश्वर के भी सन्तान होंगे । और यह बात कि मरे हुए  
 जी उठते हैं मूसा ने भी भ्रातृ की कथा में प्रगट की  
 है कि वह प्रभु के इबाहीम का परमेश्वर और इसहाक  
 का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है ।  
 ३८ परमेश्वर तो मरे हुआओं का नहीं बरन जीवतों का परमेश्वर  
 ३९ है क्योंकि उस के निकट सब जीते हैं । यह मुन शास्त्रियों  
 में से कितनों ने कहा कि हे गुरु तू ने अच्छा कहा ।  
 ४० और उन्हें फिर उस से कुछ पूछने का हियाव न  
 हुआ ॥  
 ४१ फिर उस ने उन से पूछा मसीह का दाऊद का  
 ४२ सन्तान क्योंकर कहते हैं । दाऊद आप भजनसंहिता  
 की पुस्तक में कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा  
 ४३ मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों के तेरे पांवों  
 ४४ की पीड़ी न कर दूं । दाऊद तो उसे प्रभु कहता है फिर  
 वह उस का सन्तान क्योंकर ठहरा ॥  
 ४५ जब सब लोग सुन रहे थे तो उस ने अपने चेलों  
 ४६ से कहा । शास्त्रियों से चौकस रहो जिन को लम्बे लम्बे  
 वस्त्र पहिने हुए फिरना भाता है और जिन्हें बाजारों में  
 नमस्कार और सभाओं में मुख्य आसन और जेबनारों  
 ४७ में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं । वे विधवाओं के घर खा  
 जाते हैं और दिखाने के लिये बड़ी देर तक प्रार्थना करते  
 रहते हैं । ये बहुत ही दण्ड पाएंगे ॥

**२९. उस ने आंख उठा कर धनवानों को**

अपना अपना दान भरझार में  
 २ डालते देखा । और उस ने एक कंगाल विधवा को भी  
 ३ उस में दो दर्माड़ियां डालते देखा । तब उस ने कहा मैं  
 तुम से सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सब से

बढ़कर डाला है । क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी ४  
 बढ़ती में से दान में कुछ डाला है पर इस ने अपनी  
 घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है ॥

जब कितने लोग मन्दिर के विषय कह रहे थे ५  
 कि वह कैसे सुन्दर पत्थरों से और भेंट की वस्तुओं से  
 संवारा गया है तो उस ने कहा । वे दिन आएंगे जिन में ६  
 यह सब जो तुम देखते हो उन में से पत्थर पर पत्थर  
 भी यहां न छूटेगा जो ढाया न जाएगा । उन्होंने उन से ७  
 पूछा हे गुरु यह कब होगा और ये बातें जब पूरी होने  
 पंगू होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा । उस ने ८  
 कहा चौकस रहो कि भरमाए न जाओ क्योंकि बढ़तेरे  
 मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं और समय निकट  
 आया है तुम उन के पीछे न जाना । जब तुम लड़ाइयों ९  
 और बलवों की चरचा सुनो तो घबरा न जाना क्योंकि इन  
 का पहिले होना अवश्य है पर अन्त तुरन्त न होगा ॥

तब उस ने उन से कहा जाति पर जाति और १०  
 राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा । बड़े बड़े भूईं डोल होंगे ११  
 और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी और  
 आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रगट  
 होंगे । पर इन सब बातों से पहिले वे मेरे नाम के कारण १२  
 तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे  
 और जेलखानों में डलवाएंगे और राजाओं और  
 हाकिमों के सामने ले जाएंगे । पर यह तुम्हारे लिये १३  
 गवाही देने का अवसर हो जाएगा । सो अपने अपने मन १४  
 में ठान रखो कि हम पहिले से उत्तर देने की चिन्ता न  
 करेंगे । क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि १५  
 तुम्हारे सब विरोधी सामना या खण्डन न कर सकेंगे ।  
 तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुम्ब और मित्र १६  
 भी तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम में से कितनों को मरवा  
 डालेंगे । और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से १७  
 बैर करेंगे । पर तुम्हारे सिर का एक बाल बांका न १८  
 हांगा । अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए १९  
 रखोगे ॥

जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ २०  
 देखो तो जानो कि उस का उजड़ जाना निकट है । तब २१  
 जो यहूदिया में हों वह पहाड़ों पर भाग जाएं और जो  
 यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं और जो  
 गांवों में हों वे उस में न जाएं । क्योंकि पलटा लेने के २२  
 ऐसे दिन होंगे जिन में लिखी हुई सब बातें पूरी हो  
 जाएंगी । उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती २३  
 होंगी उन के लिये हाय हाय क्योंकि देश में बड़ा क्लेश  
 और इन लोगों पर क्रोध होगा । वे तलवार के कौर २४

हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बन्धुए होकर पहुँचाए जाएंगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा । सूरज और चाँद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथिवी पर देश देश के लोगों का संकट होगा और समुद्र और लहरों के गरजने से घबराहट होगी । और डर के मारे और संसार पर आनेवाली बातों की बाट देखने से लोगों के जी में जी न रहेगा । क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी । तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे । जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर उठाना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा ॥

उस ने उन से एक दृष्टान्त भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों का देखो । जब उन की कांपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि धूपकाल निकट है । इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जानो कि परमेश्वर का राज्य निकट है । मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें तब तक यह लोग<sup>१</sup> जाते न रहेंगे । आकाश और पृथिवी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी न टलेंगी ॥

सचेत रहो ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालपन और इस जीवन की चिन्ताओं से भारी हो जाएँ और वह दिन तुम पर फन्दे की नाई अचानक आ पड़े । क्योंकि वह सारी पृथिवी के सब रहनेवालों पर आ पड़ेगा । इसलिये जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आनेवाली बातों से बचने के और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हाने के योग्य बनो ॥

और वह दिन का मन्दिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था । और बड़े तड़के सब लोग उस की सुनने के मन्दिर में उस के पास आया करते थे ॥

**२२.** अश्वमीरी रोटी का पर्व जो फ़सह कहलाता है निकट था ।

और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उस को क्योंकर मार डालें पर वे लोगों से डरते थे ॥

(१) या । यह पीढ़ी जाती न रहेगी ।

तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है और जो बारह चेलों में गिना जाता था । उस ने जाकर महायाजकों और पहरेदारों के साथ बातचीत की कि उस को क्योंकर उन के हाथ पकड़वाए । वे आनन्दित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया । उस ने मान लिया और अबसर ढूँढ़ने लगा कि जब भीड़ न रहे तो उसे उन के हाथ पकड़वा दे ॥

तब अश्वमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिस में फ़सह का मेमना मारना चाहिए था । और उस ने पतरस और यहूदा को यह कहके भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिये फ़सह तैयार करो । उन्होंने ने उस से पूछा कि कहां चाहता है कि हम तैयार करें । उस ने उन से कहा देखो नगर में जाते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा । जिस घर में वह जाए तुम उस के पीछे हो लेओ । और उस घर के स्वामी से कहो कि पाहुनशाला जिस में मैं अपने चेलों के साथ फ़सह खाऊँ कहां है । वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा वहां तैयारी करना । उन्होंने ने जाकर जैसा उस ने कहा था वैसा ही पाया और फ़सह तैयार किया ॥

जब घड़ी पहुँची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा । और उस ने उन से कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहिले यह फ़सह तुम्हारे साथ खाऊँ । क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊँगा । तब उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इस को लो और आपस में बाँट लो । क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख रस अब से कभी न पीऊँगा । फिर उस ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उन को यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिये दी जाती है मेरे स्मरण के लिये यही किया करो । इसी रीति से उस ने बियारी के पीछे कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लोह में जो तुम्हारे लिये बहाया जाता है नई बाँचा है । पर देखो मेरे पकड़वानेवाले का हाथ मेज पर है । क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा ठहराया गया जाता ही है पर हाथ उस मनुष्य पर जिस के द्वारा वह पकड़वाया जाता है । तब वे आपस में पूछू पाछू करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा ॥

उन में यह विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है । उस ने उन से कहा अन्य जातियों



के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधि-  
 २६ कार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं । पर तुम ऐसे न  
 होना बरन जो तुम में बड़ा है यह छोटे की नाई और  
 २७ जो प्रधान है वह टहलुए की नाई बने। बड़ा कौन है  
 भोजन पर बैठनेवाला या टहलुआ ? क्या भोजन पर बैठने-  
 वाला नहीं पर मैं तुम्हारे बीच में टहलुए की नाई हूँ ।  
 २८ तुम ही हो जो मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ लगातार  
 २९ रहे । और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिये राज्य ठहराया है  
 ३० वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिये ठहराता हूँ, कि तुम मेरे  
 राज्य में मेरी मेज़ पर खाओ पीओ और सिंहासनों पर  
 ३१ बैठकर इस्राएल के बारह गोत्रों का न्याय करो । शमौन  
 हे शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि  
 ३२ गेहूँ की नाई फटके । पर मैं ने तेरे लिये बिनती की कि  
 तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिर तो अपने  
 ३३ भाइयों को स्थिर करना । उस ने उस से कहा हे प्रभु  
 मैं तेरे साथ जेलखाने जाने और मरने को भी तैयार हूँ ।  
 ३४ उस ने कहा हे पतरस मैं तुझ से कहता हूँ कि आज ही  
 मुर्ग बांग न देगा कि तू तीन बार मुझ से मुकर कर  
 कहेगा कि मैं उसे नहीं जानता ॥  
 ३५ और उस ने उन से कहा जब मैं ने तुम्हें बटुए  
 और भोली और जूते बिना भेजा तो क्या तुम को  
 ३६ किसी वस्तु की घटी हुई । उन्हीं ने कहा किसी की नहीं ।  
 उस ने उन से कहा पर अब जिस के पास बटुआ हो  
 वह उसे ले और वैसे ही भोली भी और जिस के पास  
 तलवार न हो वह अपने कपड़े बेच कर एक मोल ले ।  
 ३७ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि जो लिखा है कि वह  
 अपराधियों के साथ गिना गया उस का मुझ में पूरा  
 होना अवश्य है क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने  
 ३८ पर हैं । उन्हीं ने कहा हे प्रभु देख यहां दो तलवार हैं ।  
 उस ने उन से कहा बहुत हैं ॥  
 ३९ तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार  
 जैतून पहाड़ पर गया और चले उस के पीछे हो लिए ।  
 ४० उस जगह पहुंचकर उस ने उन से कहा प्रार्थना करो कि  
 ४१ तुम परीक्षा में न पड़ो । और वह आप उन से अलग डेला  
 फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने  
 ४२ लगा कि, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोर को मेरे  
 पास से हटा ले तौभी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो ।  
 ४३ तब स्वर्ग से एक दूत जो उसे सामर्थ्य देता था उस को  
 ४४ दिखाई दिया । और वह बड़े संकट में होकर और भी लौ  
 लगाकर प्रार्थना करने लगा और उस का पसीना लोहू के  
 ४५ थके की नाई भूमि पर गिर रहा था । तब वह प्रार्थना  
 से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी

के मारे सोते पाया । और उन से कहा क्यों सोते हो उठो ४६  
 प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो ॥

वह यह कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई ४७  
 और बारहों में से एक जिस का नाम यहूदा था उन के  
 आगे आगे आ रहा था और यीशु का चूमा लेने को उस  
 के पास आया । यीशु ने उस से कहा क्या तू मनुष्य के ४८  
 पुत्र को चूमा लेकर पकड़वाता है । उस के साथियों ने ४९  
 जब देखा कि क्या होनेवाला है तो कहा हे प्रभु क्या हम  
 तलवार चलाएँ । और उन में से एक ने महायाजक के ५०  
 दास पर चलाकर उस का दहिना कान उड़ा दिया । इस ५१  
 पर यीशु ने कहा अब बस करो और उस का कान छूकर  
 उसे अच्छा किया । तब यीशु ने महायाजकों और मन्दिर ५२  
 के पहरेदारों के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर  
 चढ़ आए थे कहा क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें ५३  
 और लाठियां लिए हुए निकले हो । जब मैं मन्दिर में हर ५३  
 दिन तुम्हारे साथ था तो तुम ने मुझ पर हाथ न डाला  
 पर यह तुम्हारी घड़ी है और अघेरे का अधिकार ॥

वे उसे पकड़ के ले चले और महायाजक के घर में ५४  
 लाए और पतरस दूर दूर पीछे पीछे चलता था । जब ५५  
 वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी  
 उन के बीच में बैठ गया । और एक लौंडी उसे आग के ५६  
 उजाले में बैठे देखकर और उस की ओर ताककर कहने  
 लगी यह भी उस के साथ था । वह उस से मुकर गया ५७  
 और कहा हे नारी मैं उसे नहीं जानता । थोड़ी देर पीछे ५८  
 किसी और ने उसे देखकर कहा तू भी उन्हीं में से है पतरस  
 ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं हूँ । घड़ा एक बीते और कोई ५९  
 हठता से कहने लगा सचमुच यह भी उस के साथ था  
 क्योंकि गलीली है । पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं ६०  
 जानता तू क्या कहता है । वह कह ही रहा था कि तुरन्त  
 मुर्ग ने बांग दी । तब प्रभु ने फिरकर पतरस की ओर ६१  
 देखा और पतरस को प्रभु की उस बात की सुध आई  
 जो उस ने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहिले  
 तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा । और वह बाहर ६२  
 निकलके फूट फूट कर रोने लगा ॥

जो मनुष्य यीशु को पकड़े ये वे उसे ठट्टों में उड़ाकर ६३  
 पांटने लगे । और उस की आंख टांपकर उस से पूछा ६४  
 कि नबूवत करके बता तुझे किस ने मारा । और उन्हीं ने ६५  
 बहुत सी और भी निन्दा की बातें उस के विरोध में कहीं ॥

जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिए और महा- ६६  
 याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महा-

६७ सभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हम से कह दे। उस ने उन से कहा यदि मैं तुम से कहूँ तो प्रतीति ६८, ६९ न करोगे, और यदि पूछूँ तो उत्तर न दोगे। पर अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की दहिनी ओर बैठा रहेगा। सब ने कहा तो क्या तू ७० परमेश्वर का पुत्र है। उस ने उन से कहा तुम आप ७१ कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने ने कहा अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन है क्योंकि हम ने आप ही उस के मुँह से सुना है ॥

२ **२३. तब** सारी सभा उठकर उसे पीलातुस के पास ले गई। और वे यह कह कर उस पर दोष लगाने लगे कि हम ने इसे लोगों के बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप ३ को मसीह राजा कहते हुए सुना। पीलातुस ने उस से पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है। उस ने उसे उत्तर ४ दिया कि तू आप ही कह रहा है। तब पीलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा मैं इस मनुष्य में कुछ ५ दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश ६ करके लोगों को उत्सकाता है। यह सुनकर पीलातुस ने पूछा क्या यह मनुष्य गलीली है। और यह जानकर कि वह हेरोदेश की रियासत का है उसे हेरोदेश के पास भेज दिया कि उन दिनों वह भी यरूशलेम में था ॥ ८ हेरोदेश यीशु को देखकर बहुत ही खुश हुआ क्योंकि वह बहुत दिनों से उस को देखना चाहता था इसलिये कि उस के विषय सुना था और उस का ९ कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उस से बहुतरी बातें पूछता रहा पर उस ने उस को कुछ १० उत्तर न दिया। और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए ११ तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेश ने अपने सिपाहियों के साथ उस का अपमान कर ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पीलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पीलातुस और हेरोदेश १२ मित्र हो गए। इस से पहिले वे एक दूसरे के बैरी थे। १३ पीलातुस ने महायाजकों और सरदारों और १४ लोगों को बुलाकर उन से कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकानेवाला ठहराकर मेरे पास लाए हो और देखो मैं ने तुम्हारे सामने उस की जांच की पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों १५ के विषय मैं ने उस में कुछ भी दोष नहीं पाया। न हेरोदेश ने क्योंकि उस ने उसे हमारे पास लौटा दिया

है और देखो उस से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दण्ड के योग्य ठहरता। सो मैं उसे पिटवाकर १६ छोड़ देता हूँ। सब मिलकर चिन्ता उठे कि इस का काम १८ तमाम कर और हमारे लिये बरअब्बा को छोड़ दे। यही १९ किसी बलव के कारण जो नगर में हुआ था और खून के कारण जेलखाने में डाला गया था। पर पीलातुस २० ने यीशु को छाड़ने की इच्छा कर लोगों को फिर सम-भाया। पर उन्होंने ने चिन्ताकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा २१ क्रूस पर। उस ने तीसरी बार उन से कहा क्या उस ने २२ कौन सी बुराई की है। मैं ने उस में मृत्यु के दण्ड के योग्य कोई बात नहीं पाई इसलिये मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। पर वे चिन्ता चिन्ताकर पीछे पड़ गए कि वह २३ क्रूस पर चढ़ाया जाए और उन का चिन्ताना प्रबल हुआ। सो पीलातुस ने आज्ञा दी कि उन के मांगने २४ के अनुसार किया जाए। और उस ने उस मनुष्य को २५ जो बलव और खून के कारण जेलखाने में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे छोड़ दिया और यीशु को उन की इच्छा के अनुसार सोप दिया ॥

जब वे उसे लिए जाते थे तो उन्होंने ने शमौन नाम २६ एक कुरेनी को जो गांव से आता था पकड़ के उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले ॥

लोगों का बड़ा भीड़ उस के पीछे हाँ ली और २७ बहुत सी स्त्रियाँ भी जो उस के लिये छाती पीटतीं और विलाप करती थीं। यीशु ने उन को आरंभ कर कहा २८ हे यरूशलेम की पुत्रियाँ मेरे लिये मत रोओ पर अपने और अपने बालकों के लिये रोओ। क्योंकि देखा वे दिन २९ आते हैं जिन में कईगं धन्य वे जो बाँक हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगे कि हम पर गिरो ३० और टीलों से कि हमें टाप लो। क्योंकि जब वे हरे ३१ पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या न किया जाएगा ॥

वे और दो मनुष्यों का भी जो कुकर्माँ थे उस के ३२ साथ घात करने के ले चले ॥

जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे ३३ तो उन्होंने ने वहाँ उसे और उन कुकर्माँयों का भी एक को दहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ३४ जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने ने चिट्टियाँ डालकर उस के कपड़े बाँट लिये। लोग खड़े खड़े ३५ देख रहे थे और सरदार भी ठट्टा कर करके कहते थे कि इस ने लोगों को बचाया यदि यह परमेश्वर का मसीह

और उस का चुना हुआ है तो अपने आप को बचा  
३६ ले । सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर  
३७ उस का ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा  
३८ है तो अपने आप को बचा । और उस के ऊपर एक पत्र  
भी लगा था कि यह यहूदियों का राजा है ॥

३९ जो कुकर्मा लटकाए गए थे उन में से एक ने उस  
की निन्दा करके कहा क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप  
४० को और हमें बचा । इस पर दूसरे ने उसे डाटकर कहा  
क्या तू परमेश्वर से भी कुछ नहीं डरता । तू भां तो बही  
४१ दण्ड पा रहा है । और हम तो न्याय अनुसार दण्ड पा  
रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं  
४२ पर इस ने कोई अनुचित काम नहीं किया । तब उस ने  
कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए ता मरी तुझे  
४३ लेना । उस ने उस से कहा मैं तुझे सच कहता हूँ कि  
आज ही तू मरे साथ स्वर्ग लोक में होगा ॥

४४ और लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सार  
४५ देश में अंधेरा छाया रहा । और सूरज का उजाला  
जाता रहा और मन्दिर का परदा बाच से फट गया ।  
४६ और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे पिता मैं  
अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ और यह कह  
४७ कर प्राण छोड़ा । सबदार ने जो कुछ हुआ था देख  
कर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा निश्चय यह  
४८ मनुष्य धर्मा था । और भाड़ जो यह देखने का इकट्ठा  
हुई थी सब जा हुआ था देखकर छाती पीटती हुई  
४९ लौट गई । और उस के सब जान पहचान और जो  
स्त्रियां गलील से उस के साथ आई थीं दूर खड़ी हुई  
यह सब देख रही थीं ॥

५० और देखा यूसुफ नाम एक मन्त्रा जो उच्चम और  
५१ धर्मा पुरुष, और उन के बिचार और उन के इस काम  
से प्रसन्न न था और वह यहूदियों के नगर आरमताया  
का रहनेवाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जाहने-  
५२ वाला था । उस ने पालातुस के पास जाकर याशु का  
५३ लाय माग ली । और उसे उतारकर चादर में  
लपेटा और एक कब्र में रक्खा जो चदान में खोदी  
हुई थी और उस में कोई कभी न रक्खा गया था ।  
५४ वह तैयारी का दिन था और बिश्राम का दिन होने पर  
५५ था । और उन स्त्रियों ने जो उस के साथ गलील से  
आई थीं पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और  
यह भी कि उस की लोथ किस रीति से रक्खी गई ।  
५६ और लौटकर सुगन्धित वस्तुएं और अंतर तैयार  
किया और बिश्राम के दिन तो उन्होंने ने आज्ञा के  
अनुसार बिश्राम किया ॥

२४. पर शठवारे के पहिले दिन बड़ी भोर  
वे उन सुगन्धित वस्तुओं को जो  
उन्होंने ने तैयार की थीं ले के कब्र पर आईं । और २  
उन्होंने ने पत्थर के कब्र पर से छुड़का हुआ पाया  
और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई ।  
जब वे इस बात से हक्का बक्का हो रही थीं तो देखो, ३  
दो पुरुष भलकते वस्त्र पहिने हुए उन के पास आ खड़े  
हुए । जब वे डर गईं और धरती की ओर मुह ४  
भुकाए रहीं तो उन्होंने ने उन से कहा तुम जीवते को  
मरे हुएओं में क्यों दूढ़ती हो । वह यहां नहीं पर जी ६  
उठा है स्मरण करा कि उस ने गलील में रहते हुए तुम  
से कहा था । अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के ७  
हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए  
और तीसरे दिन जी उठे । तब उस की बातें उन को ८  
स्मरण आईं । और कब्र से लौटकर उन्होंने ने उन ९  
ग्यारहों को और और सब को ये सब बातें बता दीं ।  
जन्होंने ने प्रारंभ से ये बातें कही वे मरयम मगदलीनी १०  
और योअन्ना और याकूब की माता मरयम और उन के  
साथ की और स्त्रियां थीं । पर उन को बातें उन्हें कहानी ११  
सी समझ पड़ी और उन्होंने ने उन की प्रतीति न की ।  
तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और भुककर १२  
केवल कपड़े पड़े देख और जो हुआ था उस से अचम्भा  
करता हुआ अपने घर चला गया ॥

देखा उसी दिन उन में से दो जन इम्माऊस नाम १३  
एक गांव का जा रहे थे जो यरूशलेम से कास चार १४  
एक पर था । और वे इन सब बातों पर जो हुई थीं १५  
आपस में बातचीत करते जाते थे । और जब वे बात- १५  
चीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर  
उन के साथ ही लिया । पर उन को आखें ऐसी बन्द १६  
कर दी गई थीं कि उसे पहचान न सके । उस ने उन १७  
से पूछा ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस  
में करते हो वे उदास से खड़े रह गये । यह सुन कर १८  
उन में से क्लियोपास नाम एक जन न कहा क्या तू यरू-  
शलेम में अकला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन १९  
दिनों में उस में क्या क्या हुआ है । उस ने उन से १९  
पूछा कौन सी बातें । उन्हो ने उस से कहा याशु नासरी  
के विषय जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम  
और वचन में सामर्थ्य नवी था । और महायाजकों २०  
और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर  
मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया ।  
पर हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा २१  
देगा और इन सब बातों को छोड़ इस बात को हुए

२२ तीसरा दिन है । और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें चकित कर दिया है जो मोर को क्रबर पर गई ।  
 २३ और जब उस की लोप न पाई तो यह कहती हुई आई कि हम ने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने  
 २४ कहा कि वह जीता है । तब हमारे साथियों में से कई एक क्रबर पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वसा  
 २५ ही पाया पर उस को न देखा । तब उस ने उन से कहा हे निबंद्धियों और नबियों की सब बातों पर विश्वास  
 २६ करने में मन्दमर्तियों । क्या अवश्य न था कि मसीह ये  
 २७ दुःख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे । तब उस ने मूसा से और सब नबियों से आरम्भ करके सारे पावत्र शास्त्रों में अपने विषय की बातों का अर्थ उन्हें समझा  
 २८ दिया । इतने में वे उस गाव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उस के दग से ऐसा जान पड़ा कि आगे बढ़ा  
 २९ चाहता है । पर उन्होंने यह कह कर उस राका कि हमारे साथ रह क्योंकि साभ हा चली और १८८८ अब बहुत दल गया है । तब वह उन के साथ रहने को  
 ३० भातर गया । जब वह उन के साथ भाजन करने बैठा तो उस ने राटी लेकर धन्यवाद किया और उसे ताड़  
 ३१ कर उन को देने लगा । तब उन की आंखें खुल गईं और उन्होंने ने उसे पहचान लिया और वह उन को  
 ३२ आंखों से छिप गया । उन्हें ने आपस में कहा जब वह भाग में हम से बात करता था और पावत्र शास्त्र का अर्थ हम समझाता था तो क्या हमारे मन  
 ३३ में उमंग न आई । वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन ग्यारहा और उन के साथियों का  
 ३४ हकट्टे पाया । वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शमीन का दिखाई दिया है । तब उन्होंने ने मार्ग की बातें उन्हें बता दीं और यह भी कि उन्होंने ने उसे राटी तोड़ते समय कथीकर पहचाना ॥  
 ३५ वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उन के बीच में आ खड़ा हुआ और उन से कहा तुम्हें

शान्ति मिले । पर वे घबरा गये और डर गये और ३७ समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं । उस ने उन से ३८ कहा क्या घबराते हो और तुम्हारे मन में क्या सन्देह ३९ हाते हैं । मरे हाथ और मरे पांव देखो कि मैं ही हूँ ४० मुझे छूकर देखा क्योंकि आत्मा के हाड़ मांस नहीं हाता जसा मुझ में देखते हो । यह कहकर उस ने उन्हें ४१ अपने हाथ पांव दिखाये । जब आनन्द के मारे उन को प्रतीति न हुई और अचरज करते थे तो उस ने उन से पूछा क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है । उन्होंने ने ४२ उसे भूना मछली का टुकड़ा दिया । उस ने लेकर उन ४३ के सामने खाया । फिर उस ने उन से कहा य मरी वे ४४ बातें है जा में ने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम से कही थी कि अवश्य है कि जितना बातें मूसा की व्यवस्था और नबियों और भजनों की पुस्तक में मरे विषय लिखा है सब पूरी हो । तब उस ने पावत्र शास्त्र ४५ भूभन के लिये उन को समझ खाली । और उन से कहा या लिखा है कि मसीह दुःख उठाएगा और तीसरे १८८८ मर हुआ म से जी उठेगा । और यरूशलेम से लेकर ४७ सब जातियों में मन फिराव का और पापी का क्षमा का प्रचार उस के नाम से किया जाएगा । तुम इन सब ४८ बातों के गवाह हो । और देखो जिस का प्रातशा मरे ४९ पता न की है मैं उस को तुम पर उतारूंगा और तुम जब तक ऊपर से सामथ न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहा ॥

तब वह उन्हें बैतानथ्याह के पास तक बाहर ले ५० गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशिष दी । उन्हें आशिष देते हुए वह उन से अलग हो गया और ५१ स्वर्ग पर उठा लिया गया । और वे उस को प्रणाम ५२ करके बड़े आनन्द से यरूशलेम को लौट गये । और ५३ लगातार मन्दिर में परमेश्वर का धन्यवाद किया करते थे ॥

## यूहना रचित सुसमाचार ।

### १. आदि में वचन<sup>१</sup> था और वचन पर-

मेश्वर के साथ था और वचन  
 २ परमेश्वर था । यही आदि में परमेश्वर के साथ था ।  
 ३ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न  
 हुआ उस में से कोई भी वस्तु उस के बिना उत्पन्न न  
 ४ हुई । उस में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की  
 ५ ज्योति थी । और ज्योति अंधकार में चमकती है और  
 ६ अंधकार ने उसे ग्रहण न किया<sup>२</sup> । एक मनुष्य परमेश्वर  
 की ओर से भेजा हुआ आया जिस का नाम यूहना था ।  
 ७ यह गवाही देने आया कि ज्योति का गवाही दे कि सब  
 ८ उस के द्वारा विश्वास करें । वह आप तो ज्योति न था  
 ९ पर उस ज्योति की गवाही देने का आया था । सच्ची  
 ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत  
 १० में आनेवाली थी । वह जगत में था और जगत उस के  
 ११ द्वारा हुआ और जगत ने उसे न पहचाना । वह अपनों  
 के पास आया और उस के अपनों ने उसे ग्रहण न  
 १२ किया । पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उस ने उन्हें  
 परमेश्वर के सन्तान होने का अधिकार दिया अर्थात्  
 १३ उन्हें जो उस के नाम पर विश्वास करते हैं । वे न लोह  
 से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परन्तु  
 १४ परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं । और वचन देहधारी हुआ  
 और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में  
 डेरा किया और हम ने उस की ऐसी महिमा देखी जैसी  
 १५ पिता के एकलौते की महिमा । यूहना ने उस की गवाही  
 दी और पुकारकर कहा कि यह वही है जिस की चर्चा  
 मैं ने की कि जो मेरे पीछे आनेवाला है वह मुझ से  
 १६ बढ़कर ठहरा क्योंकि वह मुझ से पहिले था । उस की  
 भरपूरी से हम सब ने पाया बरन अनुग्रह पर अनुग्रह  
 १७ पाया । क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई अनुग्रह  
 १८ और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची । किसी ने  
 परमेश्वर को कभी नहीं देखा एकलौता पुत्र<sup>३</sup> जो पिता  
 की गोद में है उसी ने प्रगट किया ॥

(१) या । शब्द ।

(२) या । अंधकार उस पर जयवस्तु न हुआ ।

(३) और पदते हैं । परमेश्वर एकलौता ।

यूहना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने १९  
 यरूशलेम से याजकों और लेवीयों को उस से यह पूछने  
 को भेजा कि तू कौन है । तो उस ने मान लिया और २०  
 मुक़र्रा नहीं पर मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ ।  
 तब उन्होंने ने उस से पूछा ता कौन है क्या तू एलियाह २१  
 है । उस ने कहा मैं नहीं हूँ । तो क्या तू वह नबी  
 है । उस ने उत्तर दिया कि नहीं । फिर उन्होंने ने उस से २२  
 पूछा तू कौन है कि हम अपने भेजनेवालों को उत्तर  
 दे तू अपने विषय क्या कहता है । उस ने कहा मैं २३  
 जैसा यशायाह नबी ने कहा है किसी का शब्द हूँ जो  
 जङ्गल में पुकारता है कि प्रभु का मार्ग सुधारो । और २४  
 ये करीसियां की ओर से भेजे गए थे । उन्होंने ने उस से २५  
 पूछा कि यदि तू न मसीह और न एलियाह और न  
 वह नबी है तो फिर क्यों बपतिसमा देता है । यूहना २६  
 ने उन को उत्तर दिया कि मैं तो पानी से<sup>४</sup> बपतिसमा  
 देता हूँ पर तुम्हारे बीच में एक जन खड़ा है जिसे तुम  
 नहीं जानते । वही मेरे पीछे आनेवाला है जिस की जूती २७  
 का बन्ध मैं खोलने के योग्य नहीं । ये बातें यरदन के पार २८  
 बैतानियाह में हुईं जहां यूहना बपतिसमा देता था ॥

दूसरे दिन उस ने यीशु को अपने पास आते देख- २९  
 कर कहा देखा परमेश्वर का रोमना जो जगत का पाप  
 हर ले जाता है । यह वही है जिस के विषय मैं ने ३०  
 कहा था कि एक पुरुष मरे पीछे आता है जो मुझ से  
 बढ़कर ठहरा क्योंकि वह मुझ से पहिले था । मैं उसे ३१  
 पहचानता न था पर इसलिये मैं पानी से<sup>४</sup> बपतिसमा  
 देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रगट हो जाए ।  
 और यूहना ने गवाही दी कि मैं ने आत्मा को कबूतर ३२  
 की नाई आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर  
 गया । और मैं तो उसे पहचानता न था पर जिस ने ३३  
 मुझे पानी से<sup>४</sup> बपतिसमा देने को भेजा उसी ने मुझ से  
 कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते  
 देखे वही तो पवित्र आत्मा से बपतिसमा देनेवाला है ।  
 और मैं ने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर ३४  
 का पुत्र है ।

(४) या । मैं ।

- ३५ फिर दूसरे दिन यूहन्ना और उस के चेलों में से  
 ३६ दो जन खड़े हुए थे । और उस ने यीशु को फिरते हुए  
 ३७ देख कर कहा देखो परमेश्वर का मेम्ना । तब वे दोनों  
 ३८ चले उस की यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए । यीशु  
 ने मुंह फेर उन को पीछे आते देखकर उन से कहा  
 किस की खोज में हो । उन्होंने ने उस से कहा हे रब्बी  
 ३९ अर्थात् हे गुरु तू कहां रहता है । उस ने उन से कहा  
 चलो तो देख लोगे । उन्होंने ने आकर उस के रहने की  
 जगह देखी और उस दिन उसी के साथ रहे और यह  
 ४० दसवें घंटे के लगभग था । उन दोनों में से जो यूहन्ना  
 की सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे एक तो शमौन  
 ४१ पतरस का भाई अन्द्रियास था । उस ने पहिले अपने  
 सगे भाई शमौन से मिलकर कहा हमें तो मसीह  
 ४२ अर्थात् ख्रीष्टुस मिल गया है । वह उसे यीशु के  
 पास लाया यीशु ने उस को देखकर कहा, तू यूहन्ना का  
 पुत्र शमौन है तू केफा अर्थात् पतरस कहलाएगा ॥  
 ४३ दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और  
 ४४ फिलिप्पुस से मिलकर कहा मेरे पीछे हां ले । फिलिप्पुस  
 तो अन्द्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का रहनेवाला  
 था । फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर कहा कि जिस  
 की चर्चा मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने की है  
 वह हम को मिल गया वह यूसुफ का पुत्र नासरत का  
 ४६ यीशु है । नतनएल ने उस से कहा क्या कोई अच्छी  
 वस्तु नासरत से निकल सकती है । फिलिप्पुस ने उस  
 ४७ से कहा चलकर देख ले । यीशु ने नतनएल को अपने  
 पास आते देखकर उस के विषय कहा देखो यह सच-  
 ४८ मुच इस्राईली है इस में कपट नहीं । नतनएल ने उस  
 से कहा तू मुझे कहां से पहचानता है । यीशु ने उस को  
 उत्तर दिया उस से पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया  
 जब तू अंजीर के पेड़ तले था तब मैं ने तुझे देखा था ।  
 ४९ नतनएल ने उस को उत्तर दिया कि हे रब्बी तू परमेश्वर  
 ५० का पुत्र है तू इस्राईल का राजा है । यीशु ने उस को  
 उत्तर दिया मैं ने जो तुझ ने कहा कि मैं ने तुझे अंजीर  
 के पेड़ तले देखा क्या तू इसी लिये विश्वास करता है ।  
 ५१ तू इस से बड़े बड़े काम देखेगा । फिर उस ने कहा मैं  
 तुम से सच सच कहता हूं तुम स्वर्ग को खूना और  
 परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर ने  
 चढ़ते उतरते देखोगे ॥

२ तीसरे दिन गलील के काना में

किसी का ब्याह था और यीशु

२ की माता वहां थी । और यीशु और उस के चले भी  
 ३ उस ब्याह में नेवते गए थे । जब दाखरस घट गया तो

यीशु की माता ने उस से कहा उन के पास दाखरस  
 नहीं रहा । यीशु ने उस से कहा हे नारी तेरा मुझ से ४  
 क्या काम । अभी मेरा समय नहीं आया । उस की ५  
 माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुम से कहे वह  
 करना । वहां यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनु- ६  
 सार पत्थर के छः मटके धरे थे जिन में दो दो तीन तीन  
 मन समाता था । यीशु ने उन से कहा मटकों में पानी ७  
 भर दो सो उन्होंने ने उन्हें मुंहामुंह भर दिया । तब ८  
 उस ने उन से कहा अब निकालकर भोज के प्रधान  
 के पास ले जाओ । वे ले गये । जब भोज के प्रधान ९  
 ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और न  
 जानता था कि वह कहां से आया है (पर जिन सेवकों  
 ने पानी निकाला था वे जानते थे) तो भोज के प्रधान  
 ने दूधे को बुलाकर उस से कहा, हर एक मनुष्य पहले १०  
 अच्छा दाखरस देता और जब लोग पीकर लूक जाते हैं  
 तब मध्यम देता है तू ने अच्छा दाखरस अब तक रख  
 छोड़ा है । यीशु ने गलील के काना में अपना यह ११  
 पहिला चिन्ह दिग्वाकर अपनी महिमा प्रगट की और  
 उस के चेलों ने उस पर विश्वास किया ॥

इस के पीछे वह और उस की माता और उस के १२  
 भाई और उस के चले कफरनहूम को गए और वहां  
 कुछ दिन रहे ॥

यहूदियों का फ़सह निकट था और यीशु १३  
 यरूशलेम को गया । और उस ने मन्दिर में बैल और १४  
 भेड़ और कबूतर के बेचनेवालों और सर्पाँकों को बैठे हुए  
 पाया । और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और १५  
 बैलों को मन्दिर से निकाल दिया और सर्पाँकों के पैसे  
 बिथरा दिये और पीड़ों को उलट दिया । और कबूतर १६  
 बेचनेवालों से कहा इन्हें यहां से ले जाओ मरे पिता  
 का घर व्यापार का घर न बनाओ । तब उस के चेलों १७  
 को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा  
 जाएगी । इस पर यहूदियों ने उस से कहा तू जो यह १८  
 करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है । यीशु ने १९  
 उन को उत्तर दिया कि इस मन्दिर को ढा दो और मैं  
 उमें तीन दिन में उठाऊंगा । यहूदियों ने कहा इस २०  
 मन्दिर के बनाने में छियातीस बरस लगे हैं और तू  
 क्या तीन दिन में इसे उठाएगा । पर उस ने अपनी देह २१  
 के मन्दिर के विषय कहा था । सो जब वह मरे हुआ २२  
 में से जी उठा तो उस के चेलों को स्मरण आया कि उस  
 ने यह कहा था और उन्होंने ने पवित्र शास्त्र की और उस  
 वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की ॥

२३ जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में  
था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता  
२४ था देखकर उस के नाम पर विश्वास किया । पर यीशु  
ने अपने आप को उन के भरोसे न छोड़ा क्योंकि वह  
२५ सब को जानता था । और उसे प्रयोजन न था कि  
मनुष्य के विषय कोई गवाही दे क्योंकि वह आप  
जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है ॥

### ३. फ्रांसियों में से नीकुदेमुस नाम एक

मनुष्य था जो यहूदियों  
२ का सरदार था । उस ने रात को यीशु के पास आकर  
उस से कहा हे रब्बी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर  
की ओर से गुरु होकर आया है क्योंकि कोई इन चिन्हों  
को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उस के साथ न हो  
३ तो नहीं दिखा सकता । यीशु ने उस को उत्तर दिया कि  
मैं तुझ से सच सच कहता हूँ यदि कोई नये सिरे से  
न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता ।  
४ नीकुदेमुस ने उस से कहा मनुष्य बढ़ा होकर क्योंकि  
जन्म ले सकता है क्या वह अपनी माता के गर्भ में  
५ दूसरी बार जाकर जन्म ले सकता है । यीशु ने उत्तर  
दिया कि मैं तुझ से सच सच कहता हूँ यदि कोई पानी  
और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश  
६ नहीं कर सकता । जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है  
७ और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है । अचम्भा  
न कर कि मैं ने तुझ से कहा कि तुम्हें नए सिरे से  
८ जन्म लेना अवश्य है । हवा जिधर चाहती उधर चलती  
है और तू उस का शब्द सुनता है पर नहीं जानता वह  
कहाँ से आती और किधर जाती है । जो कोई आत्मा  
९ से जन्मा है वह ऐसा ही है । नीकुदेमुस ने उस को  
१० उत्तर दिया कि ये बातें क्यांकर हो सकती हैं । यह  
सुन यीशु ने उम से कहा क्या तू इस्राईलियों का गुरु  
११ होकर भी ये बातें नहीं समझता । मैं तुझ से सच सच  
कहता हूँ हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जो देखा  
है उस का गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही नहीं  
१२ मानते । जब मैं ने तुम से पृथिवी की बातें कहीं और  
तुम प्रतीति नहीं करते तो यदि मैं तुम से स्वर्ग की  
१३ बातें कहूँ तो क्यांकर प्रतीति करोगे । और कोई स्वर्ग  
पर नहीं गया केवल वही जो स्वर्ग से उतरा अर्थात्  
१४ मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है । जिस रीति से मूसा ने  
जंगल में साँप को ऊँचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य  
१५ है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊँचे पर चढ़ाया जाए, कि जो  
कोई विश्वास करे उस में अनन्त जीवन पाए ॥  
१६ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रक्वा

कि उस ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई  
उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनन्त जीवन  
पाए । परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिये १७  
नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए पर इसलिये कि  
जगत उस के द्वारा उद्धार पाए । जो उस पर विश्वास १८  
करता है वह दोषी नहीं ठहरता पर जो विश्वास नहीं  
करता वह दोषी ठहर चुका इसलिये कि उस ने परमे-  
श्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया ।  
और दोषी ठहरने का कारण यह है कि ज्योति जगत में १९  
आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक  
प्रेम किया इसलिये कि उन के काम बुरे थे । क्योंकि जो २०  
कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और  
ज्योति के निकट नहीं आता न हो कि उस के कामों पर  
दोष लगाया जाए । पर जो सच्चाई पर चलता है वह २१  
ज्योति के निकट आता है इसलिये कि उस के काम  
प्रगट हों कि परमेश्वर की ओर से किए गए हैं ॥

इस के पीछे यीशु और उस के चेले यहूदिया देश २२  
में आए और वह वहाँ उन के साथ रह कर बपतिसमा देने  
लगा । यूहन्ना भी शालेम के निकट ऐनोन में बपतिसमा २३  
देता था । क्योंकि वहाँ बहुत पानी था और लोग आकर  
बपतिसमा लेते थे । क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल २४  
खाने में न डाला गया था । यूहन्ना के चेलों और किसी २५  
यहूदी में शुद्ध करने के विषय विवाद हुआ । और २६  
उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उस से कहा हे रब्बी जो  
यरदन के पार तेरे साथ था और जिस की तू ने गवाही  
दी देख वह बपतिसमा देता है और सब उम के पास आते  
हैं । यूहन्ना ने उत्तर दिया जब तक मनुष्य को स्वर्ग से २७  
न दिया जाय तो वह कुछ नहीं पा सकता । तुम तो आप २८  
ही मेरे गवाह हो कि मैं ने कहा मैं मसीह नहीं पर उस के  
आगे भेजा गया हूँ । जिस की दुलहिन है वही दूलहा है २९  
पर दूलहे का मित्र जो खड़ा हुआ उस की सुनता है  
दूलहे के शब्द से बहुत हर्षित होता है सो मेरा यह हर्ष  
पूरा हुआ है । अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूँ ॥ ३०

जो ऊपर से आता है वह सब से ऊपर है जो ३१  
पृथिवी से है वह पृथिवी का है और पृथिवी की बातें  
कहता है जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है ।  
जो कुछ उस ने देखा और सुना है उसी की गवाही देता ३२  
है और कोई उस की गवाही नहीं मानता । जिस ने उस ३३  
की गवाही मानी वह इस बात पर छाप दे चुका कि  
परमेश्वर सच्चा है । इसलिये कि जिसे परमेश्वर ने भेजा ३४  
है वह परमेश्वर की बातें कहता है क्योंकि वह उस को  
आत्मा नाप नापकर नहीं देता । पिता पुत्र से प्रेम ३५

रखता है और उस ने सब कुछ उस के हाथ में दिया ३६ है । जो पुत्र पर विश्वास करता है अनन्त जीवन उस का है पर जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन नहीं देखेगा परन्तु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है ॥

४. जब प्रभु को मालूम हुआ कि फारी-सियों ने सुना है कि यीशु यूहना से अधिक चले करता और उन्हें बगति-समा देता है, पर यीशु आप नहीं बरन उस के चले बगति-समा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया । और उस को सामरिया से होकर जाना अवश्य था । सो वह सूखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था । और याकूब का कुआँ भी वहीं था सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएँ पर थोड़ी बैठ गया और यह बात छूटे घण्टे के लगभग हुई । इतने में एक सामरी स्त्री पानी भरने को आई । यीशु ने उस से कहा मुझे पानी पिला । उस के चले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे । उस सामरी स्त्री ने उस से कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है (क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का बरताव नहीं रखते) यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के दान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझ से कहता है मुझे पानी पिला दे तो तू उस से मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता । स्त्री ने उस से कहा हे प्रभु तेरे पास तो जल भरने को कुछ भी नहीं है और कुआँ गहरा है फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया । क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिस ने हमें यह कुआँ दिया और आपही अपने सन्तान और अपने ढारों समेत उस में से पिया । यीशु ने उस को उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पीएगा वह फिर पियासा होगा । पर जो कोई उस जल में से पीएगा जो मैं उसे दूँगा वह फिर कभी पियासा न होगा बरन जो जल मैं उसे दूँगा वह उस में अनन्त जीवन के लिए उमड़नेवाले जल का सोता हो जाएगा । स्त्री ने उस से कहा हे प्रभु वह जल मुझे दे कि मैं पियासी न होऊँ न जल भरने को इतनी दूर आऊँ । यीशु ने उस से कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला । स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ । यीशु ने उस से कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू पाँच पति कर चुकी है और जिस के पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं यह तू ने सच कहा है । स्त्री ने उस से कहा हे प्रभु

मुझे जान पड़ता है कि तू नबी है । हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है । यीशु ने उस से कहा हे नारी मेरी प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न इस पहाड़ पर न यरूशलेम में पिता का भजन करोगे । तुम जिसे नहीं जानते उस का भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उस का भजन करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है । पर वह समय आता है और अब भी है जिस में सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता ऐसे भजन करनेवालों को चाहता है । परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उस के भजन करनेवाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें । स्त्री ने उस से कहा मैं जानती हूँ कि मसीह जो खोज रहा है आनेवाला है जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा । यीशु ने उस से कहा मैं जो तुझ से बोल रहा हूँ वही हूँ ॥

इतने में उस के चले आ गए और अवग्भा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है तौभी किसी ने न कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिये उस से बातें करता है । तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी । आओ एक मनुष्य को देखो जिस ने सब कुछ जो मैं ने किया मुझे बता दिया । क्या यही मसीह तो नहीं । सो वे नगर से निकलकर उस के पास आने लगे । इतने में उस के चले यीशु से विनती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा लो । उस ने उन से कहा मेरे पास खाने के लिये ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते । चलो ने आपस में कहा क्या कोई उस के लिये कुछ खाने को लाया है । यीशु ने उन से कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजनेवाले की इच्छा पर चलूँ और उस का काम पूरा करूँ । क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी चार महीने हैं । देखो मैं तुम से कहता हूँ अपनी आँखें उठाकर खेतों को देखो कि वे कटनी के लिये पक चुके हैं । और काटनेवाला मजदूरी पाता और अनन्त जीवन के लिये फल बटोरता है कि बोनेवाला और काटनेवाला दोनों मिलकर आनन्द करें । इस में यह बात सच ठहरी कि बोनेवाला एक और काटनेवाला दूसरा है । मैं ने तुम्हें ऐसा खेत काटने का भेजा जिस में तुम ने मिहनत नहीं की और मैं ने मिहनत की और तुम उन की मिहनत के फल में भागी हुए ॥

उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से जिस ने यह गवाही दी थी कि उस ने सब कुछ जो



- ४० मैं ने किया है मुझे बता दिया विश्वास किया । इस लिये जब ये सामरी उस के पास आए तो उस से बिनती करने लगे कि हमारे यहां रह सो वह वहां दो दिन
- ४१ रहा । और उस के वचन के कारण और भी बहुतेरों
- ४२ ने विश्वास किया । और उस स्त्री से कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते क्योंकि हम ने आप ही सुन लिया है और जान गए कि यही सचमुच जगत का उद्धारकर्ता है ॥
- ४३ उन दो दिनों के पीछे वह वहां से निकलकर गलील
- ४४ को गया । क्योंकि यीशु ने तो आप ही गवाही दी कि
- ४५ नबी अपने निज देश में आदर नहीं पाता । जब वह गलील में आया तो गलीली आनन्द के साथ उस से मिले क्योंकि जितने काम उस ने यरूशलेम में पर्ब्य के समय किए थे उन्होंने ने उन सब को देखा था क्योंकि वे भी पर्ब्य में गए थे ॥
- ४६ सो वह फिर गलील के काना में आया जहां उस ने पानी को दाख रस बनाया था और राजा का एक कर्मचारी था जिस का पुत्र कफरनहूम में बीमार था ।
- ४७ वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है उस के पास जाकर उस से बिनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वह मरने पर था । यीशु ने उस से कहा जब तक तुम चिन्ह और
- ४८ श्रद्भुत काम न देखोगे तो विश्वास न करोगे । उस कर्मचारी ने उस से कहा हे प्रभु मेरे बालक के मरने से
- ४९ पहिले चल । यीशु ने उस से कहा जा तेरा पुत्र जीता है । उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की
- ५० और चला गया । वह जा ही रहा था कि उस के दास उस से आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीता है । उस ने उन से पूछा किस घड़ी उस का जी हलका हुआ । उन्होंने ने उस से कहा कल सातवें घण्टे उस की तप उतर गई । सो पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उस से कहा तेरा पुत्र जीता है और उस ने और उस के सारे घराने ने विश्वास किया ।
- ५४ यह दूसरा चिन्ह था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया ॥

५. इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्ब्य हुआ और यीशु यरूशलेम को गया ॥

- २ यरूशलेम में मेड़-फाटक के पास एक कुण्ड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है और उस के ३ पांच ओसारे हैं । इन में बहुत से बीमार अंधे लंगड़े

और सूखे अंगवाले पड़े थे<sup>१</sup> । वहां एक मनुष्य था जो अड़तीस बरस से बीमारी में पड़ा था । यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख कर और यह जान कर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है उस से पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है । बीमार ने उस को उत्तर दिया कि हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब जल हिलाया जाए तो मुझे कुण्ड में उतारे और मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझ से पहिले उतर पड़ता है । यीशु ने उस से कहा उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर । वह मनुष्य तुरन्त चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा ॥

उसी दिन विश्राम का दिन था । इसलिये यहूदी उस से जो अच्छा हुआ था कहने लगे आज तो विश्राम का दिन है तुझे खाट उठानी उचित नहीं । उस ने उन्हें उत्तर दिया कि जिस ने मुझे चंगा किया उसी ने मुझ से कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर । उन्होंने ने उस में पूछा वह कौन मनुष्य है जिस ने तुझ से कहा खाट उठाकर चल फिर । पर जो चंगा हो गया था वह न जानता था वह कौन है क्योंकि उस जगह में भीड़ हाने से यीशु वहां से टल गया था । इन बातों के पीछे वह यीशु को मन्दिर में मिला तब उस ने उस से कहा देख तू चंगा हो गया है फिर पाप न करना ऐसा न हो कि इस से कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े । उस मनुष्य ने आकर यहूदियों में कह दिया कि जिस ने मुझे चंगा किया वह यीशु है । इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे कि वह ऐसे ऐसे काम विश्राम के दिन करता था । इस पर यीशु ने उन से कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं । इस कारण यहूदी और भी अधिक उस के मार डालने का यत्न करने लगे कि वह न केवल विश्राम के दिन की विधि को तोड़ता परन्तु परमेश्वर को अपना निज पिता कह कर अपने आपको परमेश्वर के बराबर ठहराता था ॥

इस पर यीशु ने उन से कहा मैं तुम से सच सच कहता हूं पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता केवल वह जो पिता को करते देखता है क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है । क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता वह सब उसे दिखाता है और वह इन से

(१) कई एक हस्तलेखों में यह मिलता है—जो जल के हिलने की बात जोहने थे । (४) क्योंकि समय के अनुसार एक स्वर्गदूत उस कुण्ड में उतरके जल को हिलाता था इस से जो कोई जल के हिलने के पीछे उस में पहिले उतरता था कोई भी रोग उसे लगा हो चंगा हो जाता था ।

भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम अचम्भा करो ।  
 २१ क्योंकि जैसा पिता मेरे हुआँ को उठाता और जिलाता है  
 वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है ।  
 २२ और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता पर न्याय  
 २३ करने का सब काम पुत्र को दिया है, इसलिये कि सब  
 लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी  
 २४ आदर करें । जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता  
 का जिस ने उसे भेजा आदर नहीं करता । मैं तुम से  
 सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुन कर मेरे भेजने-  
 वाले की प्रतीति करता है अनन्त जीवन उस का है  
 और वह दोषी नहीं ठहरेगा<sup>१</sup> पर मृत्यु के पार होकर  
 २५ जीवन में पहुँचा है । मैं तुम से सच सच कहता हूँ वह  
 समय आता है और अब है जिस में मरें हुए परमेश्वर  
 २६ के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जीएंगे । क्योंकि  
 जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी  
 रीति से उस ने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि  
 २७ अपने आप में जीवन रखे । और उसे न्याय करने का  
 भी अधिकार दिया है इसलिये कि वह मनुष्य का पुत्र  
 २८ है । इस में अचम्भा मत करो क्योंकि वह समय आता  
 है कि जितने कब्रों में हैं वे सब उस का शब्द सुनकर  
 २९ निकलेंगे । जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान<sup>२</sup>  
 के लिये जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दण्ड  
 के पुनरुत्थान<sup>३</sup> के लिये जी उठेंगे ॥  
 ३० मैं आप से कुछ नहीं कर सकता जैसा सुनता  
 हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय ठीक है क्योंकि  
 मैं अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजनेवाले की इच्छा  
 ३१ चाहता हूँ । यदि मैं अपनी गवाही देता हूँ तो मेरी  
 ३२ गवाही सच्ची नहीं । एक और है जो मेरी गवाही देता है  
 और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्चा  
 ३३ है । तुम ने यूहन्ना से पुत्रवाया और उस ने सचाई की  
 ३४ गवाही दी है । मैं मनुष्य की गवाही नहीं चाहता लौ-  
 भी मैं ये बातें इसलिये कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार  
 ३५ मिले । वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था  
 और तुम्हें कुछ देर तक उस की ज्योति में मगन होना  
 ३६ अच्छा लगा । परन्तु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना  
 की गवाही से बड़ी है क्योंकि जो काम पिता ने मुझे  
 पूरे करने को सौंपे हैं अर्थात् ये जो काम मैं करता हूँ वे  
 ३७ मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है । और पिता  
 जिस ने मुझे भेजा है उस ने भी मेरी गवाही दी है ।  
 तुम ने न कभी उस का शब्द सुना और न उस का रूप

देखा है । और उस का वचन तुम्हारे मन में नहीं ठह- ३८  
 रने पाता क्योंकि जिसे उस ने भेजा उस की प्रतीति नहीं  
 करते । तुम पवित्रशास्त्र में ढूँढ़ते हो<sup>४</sup> क्योंकि समझते ३९  
 हो कि उस में अनन्त जीवन हमें मिलता है और यह  
 वही है जो मेरी गवाही देता है । पर तुम जीवन पाने ४०  
 के मेरे पास आना नहीं चाहते । मैं मनुष्यों से आदर ४१  
 नहीं लेता । पर मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर ४२  
 का प्रेम नहीं । मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और ४३  
 तुम मुझे ग्रहण नहीं करते यदि कोई और अपने ही  
 नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोंगे । तुम जो एक ४४  
 दूसरे से आदर लेते हो और वह आदर जो अद्वैत  
 परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते क्योंकि विश्वास  
 कर सकते हो । यह न समझो कि मैं पिता के सामने ४५  
 तुम पर दोष लगाऊंगा । तुम पर दोष लगानेवाला तो  
 है अर्थात् मूसा जिस पर तुम ने भरोसा रक्खा है ।  
 क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी ४६  
 प्रतीति करते इसलिये कि उस ने मेरे विषय लिखा  
 है । पर यदि तुम उस के लिखे की प्रतीति नहीं करते ४७  
 तो मेरे कहे का क्योंकि प्रतीति करोगे ॥

६. इन बातों के पीछे यीशु गलील की अर्थात्  
 तिविरियास की भाल के पार गया ।

और एक बड़ी भीड़ उस के पीछे हो ली इस कारण २  
 कि जो अचरज कर्म<sup>५</sup> वह बीमारों पर करता था वे  
 उन को देखते थे । तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने ३  
 चेलों के साथ वहा बैठा । और यहूदियों के क्रसह का ४  
 पर्व निकट था । तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर  
 एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलि- ५  
 प्पुस से कहा हम इन के भोजन के लिये कहां से रोटी  
 मोल लाएं । पर उस ने यह बात उसे परम्यने को कही ६  
 क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा ।  
 फिलिप्पुस ने उस को उत्तर दिया कि दो सौ दीनार<sup>६</sup> ७  
 की रोटी उन के लिये इतनी भी न होगी कि उन में से  
 हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए । उस के चेलों में ८  
 से शमौन पतरस के भाई अन्द्रियास ने उस से कहा ।  
 यहां एक लड़का है जिस के पास जव की पांच रोटी ९  
 और दो मछली हैं पर इतने लोगों के लिये वे क्या हैं ।  
 यीशु ने कहा कि लोगो को बैठा दो ? उस जगह बहुत १०  
 घास थी सो पुरुष जो गिनती में लगभग पांच हजार  
 के थे बैठ गए । सो यीशु ने रोटियां लीं और धन्यवाद ११

(१) या इहां ।

(४) यू० चिन्ह ।

(५) देखो मत्ती १८:२८ ।

(१) या । वह न्याय में नहीं आता ।

(२) या । मृतपुनरुत्थान ।

करके बैठनेवालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में  
१२ से जितनी वे चाहते थे । जब वे तृप्त हुए तो उस ने  
अपने चेलों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ  
१३ फेंका? न जाए । सो उन्होंने बटोरा और जब की पांच  
रोटियों के टुकड़े जो खानेवालों से बच रहे उन की  
१४ बारह टोकरी भरीं । जो चिन्ह उस ने दिखाया उसे वे  
लांग देखकर कहने लगे कि सचमुच यही वह नबी है  
जो जगत में आनेवाला था ॥

१५ जब यीशु ने जाना कि वे मुझे राजा बनाने के लिये  
आकर पकड़ना चाहते हैं तो वह फिर पहाड़ पर अकेला  
चला गया ॥

१६ जब सांभ हुआ तो उस के चले भील के किनारे  
१७ गए । और नाव पर चढ़ के भील के पार कफरनहूम को  
जा रहे थे । उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु  
१८ उन के पास तब तक न आया था । आंधी से भील  
१९ लहराने लगी । जब वे खेत खेत कोस दो एक निकल  
गए तो उन्होंने यीशु को भील पर चलते और नाव  
२० के निकट आते देखा और डर गए । पर उस ने उन से  
२१ कहा मैं हूँ डरो मत । तब उन्होंने उसे नाव पर चढ़ा  
लेना चाहा और तुरन्त नाव उस किनारे पर जहां वे  
जाते थे लग गई ॥

२२ दूसरे दिन उस भीड़ ने जो भील के पार खड़ी  
थी यह देखा कि यहां एक को छोड़कर और कोई  
छोटी नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस  
नाव पर न चढ़ा पर केवल उस के चले चले गए थे ।

२३ (तौभी और छोटी नावें तिबिरियास से उस जगह के  
निकट आईं जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के  
२४ पीछे रोटी खाई थी) । सो जब भीड़ ने देखा कि यहां

न यीशु है और न उस के चले तो वे भी छोटी छोटी  
नावों पर चढ़ के यीशु को ढूँढते हुए कफरनहूम को  
२५ पहुंचे । और भील के पार उस से मिलकर कहा हे

२६ रबी तू यहां क्या आया । यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि  
मैं तुम से सच सच कहता हूँ तुम मुझे इसलिये नहीं  
ढूँढते हो कि तुम ने चिन्ह देखे पर इसलिये कि उन

२७ रोटियों में से खाकर तृप्त हुए । नाशमान भोजन के  
लिये परिश्रम न करो पर उस भोजन के लिये जो  
अनन्त जीवन तक ठहरता है जिसे मनुष्य का पुत्र

तुम्हें देगा क्योंकि पिता अर्थात् परमेश्वर ने उसी  
२८ पर छाप कर दी है । उन्होंने उस से कहा परमेश्वर  
२९ के कार्य करने के लिये हम क्या करें । यीशु

ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम

(१) यू० । ख० ।

उस पर जिसे उस ने भेजा है विश्वास करो । उन्होंने ने ३०  
उस से कहा तो तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम  
उसे देखकर तेरी प्रतीति करें तू कौन सा काम दिखाता  
है । हमारे बाप दादों ने जंगल में मान<sup>२</sup> खाया जैसा ३१  
लिखा है कि उस ने उन्हें स्वर्ग से रोटी खाने को दी ।  
यीशु ने उन से कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ मूसा ३२  
ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी पर मेरा पिता तुम्हें  
सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है । क्योंकि परमेश्वर की रोटी ३३  
वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती  
है । तब उन्होंने उस से कहा हे प्रभु यह रोटी हमें सदा ३४  
दिया कर । यीशु ने उन से कहा जीवन की रोटी मैं हूँ ३५  
जो मेरे पास आएगा सो कभी भूखा न होगा और जो  
मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी पियासा न होगा । पर ३६  
मैं ने तुम से कहा कि तुम ने मुझे देख भी लिया है  
तौभी विश्वास नहीं करते । जो पिता मुझे देता है वह ३७  
सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा  
उसे मैं कभी न निकालूंगा । क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं ३८  
वरन अपने भेजनेवाले की इच्छा पूरी करने के लिये  
स्वर्ग से उतरा हूँ । और मेरे भेजनेवाले की इच्छा यह ३९  
है कि सब जो उस ने मुझे दिया है उस में से मैं कुछ न  
खाऊं पर उसे पिछले दिन जिला उठाऊं । मेरे पिता की ४०  
इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर  
विश्वास करे वह अनन्त जीवन पाए और मैं उसे पिछले  
दिन में जिला उठाऊंगा ॥

इस से यहूदी उस पर कुछकुड़ाने लगे इसलिये ४१  
कि उस ने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं  
हूँ । और उन्होंने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु ४२  
नहीं जिस के माता पिता को हम जानते हैं तो वह

क्योंकर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ । यीशु ने ४३  
उन को उत्तर दिया कि आपस में मत कुछकुड़ाओ ।  
कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिस ने ४४  
मुझे भेजा है उसे खींच न ले और मैं उस को पिछले

दिन में जिला उठाऊंगा । नावियों के लेखों में यह लिखा ४५  
है कि वे सब परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे । जिस

किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास ४६  
आता है । यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है पर

जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को  
देखा है । मैं तुम से सच सच कहता हूँ जो कोई ४७  
विश्वास करता है अनन्त जीवन उसी का है । जीवन

की रोटी मैं हूँ । तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में ४९  
मान खाया और मर गए । यह वह रोटी है जो स्वर्ग ५०

(२) यू० । मत्ता । दखो निग० १६ १५ ।

- से उतरती है कि मनुष्य उस में से खाए और न मरे ।
- ५१ जीवती रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ । यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सदा लों जीता रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिये दूंगा वह मेरा मांस है ॥
- ५२ इस पर यहूदी आपस में भ्रगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्योंकि हमें अपना मांस खाने का दे सकता है ।
- ५३ यीशु ने उन से कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ जय तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उस का लोहू न पीओ तुम में जीवन नहीं । जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है अनन्त जीवन उसी का है और मैं उसे पिछले दिन जिला उठाऊंगा । क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा लोहू सच्ची पीने की वस्तु है । जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उस में ।
- ५७ जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवता हूँ वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीएगा । जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है न कि जैसा बाप दादों ने खाया और मर गए । जो कोई यह रोटी खाएगा वह सदा लों जीता रहेगा । उस ने ये बातें कफरनहूम में उपदेश करते हुए सभा के घर में कहीं ॥
- ६० इसलिये उस के चलो में से बहुतों ने यह सुन कर कहा यह बात कठिन है इसे कौन सुन सकता है ।
- ६१ यीशु ने अपने मन में यह जान कर कि मरे चले इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं उन से पूछा क्या इस बात से तुम्हें टोकर लगती है । यदि मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहिले था वहां ऊपर जाते देखेंगे तो क्या कहेंगे ।
- ६३ आत्मा तो जीवनदायक है शरीर से कुछ लाभ नहीं जो बातें मैं ने तुम से कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं । पर तुम में से कितने ऐस हैं जो विश्वास नहीं करते । यीशु तो पहिले ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा ।
- ६५ और उस ने कहा इसी लिये मैं ने तुम से कहा है कि जब तक किसी का पिता की ओर से न दिया जाए वह मेरे पास नहीं आ सकता ॥
- ६६ इस पर उस के चलो में से बहुतों फिर गए और
- ६७ उस के साथ और न चले । इसलिये यीशु ने उन बारहों से कहा क्या तुम भी चला जाना चाहते हो । शमीन पतरस ने उस को उत्तर दिया कि हे प्रभु किस के पास जाए अनन्त जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं । और हम ने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है । यीशु ने उन्हें उत्तर दिया क्या मैं ने तुम बारहों को नहीं चुन लिया तौभी तुम में से

एक जन शैतान' है । यह उस ने शमीन इस्करियोती के पुत्र यहूदाह के विषय कहा क्योंकि यही जो उन बारहों में से था उसे पकड़वाने पर था ॥

७. इन बातों के पीछे यीशु गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदी उसे मार डालना चाहते थे इसलिये वह यहूदिया में फिरना न चाहता था । और यहूदियों का मण्डपों का पर्व निकट था । इसलिये उस के भाइयों ने उस से कहा यहां से सिधार और यहूदिया में चला जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चले भी देखें । क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे । यदि तू यह काम करता है तो अपनी तई जगत को दिखा । क्योंकि उस के भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे । यीशु ने उन से कहा मेरा समय अब तक नहीं आया पर तुम्हारा समय सदा बना रहता है । जगत तुम से बैर नहीं कर सकता पर वह मुझ से बैर करता है क्योंकि मैं उस के विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उस के काम बुरे हैं । तुम पर्व में जाओ । मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता क्योंकि मेरा समय अब तक पूरा नहीं हुआ । वह उन से ये बातें कह कर गलील ही में रह गया ॥

पर जब उस के भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रगट में नहीं पर मानो गुप्त होकर गया । सो यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढते थे कि वह कहाँ है । और लोगों में उस के विषय चुपके चुपके बहुत सी बातें हुईं कितने कहते थे वह भला मनुष्य है और कितने कहते थे नहीं पर वह लोगों का भरमाता है । तौभी यहूदियों के डर के मारे कोई उस के विषय खुलकर न बोलता था ॥

पर्व के बीचोबीच यीशु मन्दिर में जाकर उपदेश करने लगा । तब यहूदियों ने अचम्भा करके कहा इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई । यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं पर मेरे भेजनेवाले का है । यदि कोई उस की इच्छा पर चलना चाहे तो इस उपदेश के विषय जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है मैं अपनी ओर से कहता हूँ । जो अपनी ओर से कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है पर जो अपने भेजनेवाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उस में अधर्म नहीं । क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था न दी तौभी तुम में से कोई व्यवस्था पर

नहीं चलता । तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो ।  
 २० लोगों ने उत्तर दिया कि तुम्हें दुष्टात्मा लगा है कौन तुम्हें  
 २१ मार डालना चाहता है । यीशु ने उन को उत्तर दिया  
 कि मैं ने एक काम किया और तुम सब अचम्भा करते  
 २२ हो । मूसा ने तुम्हें स्वतन्त्र की आज्ञा दी (यह नहीं कि वह  
 मूसा की आंश से है पर बापदादों से चली आई है) और  
 तुम विश्राम के दिन को मनुष्य का स्वतन्त्र करते हो ।  
 २३ जब विश्राम के दिन मनुष्य का स्वतन्त्र किया जाता है  
 कि मूसा की व्यवस्था टल न जाए तो तुम मुझ पर क्यों  
 इसलिये क्रोध करते हो कि मैं ने विश्राम के दिन  
 २४ मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया । मुंह देखकर न्याय  
 न चुकाओ पर ठीक ठीक न्याय चुकाओ ॥  
 २५ तब कितने यरूशलेमी कहने लगे क्या यह वही  
 २६ नहीं जिसे वे मार डालना चाहते हैं । पर देखो वह  
 खुल्लमखुल्ला बातें करता है और कोई उस से कुछ नहीं  
 कहता क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि वही  
 २७ मसीह है । इस को तो हम जानते हैं कि कहां का है पर  
 मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहां का  
 २८ है । यीशु ने मन्दिर में उपदेश करते हुए पुकार के कहा  
 तुम मुझे जानते और यह भी जानते हो कि मैं कहां का  
 हूँ मैं तो आप से नहीं आया पर मेरा भेजनेवाला सच्चा  
 २९ है उस को तुम नहीं जानते । मैं उसे जानता हूँ क्योंकि  
 ३० मैं उस की ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है । इस  
 पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तोभी किसी ने उस पर  
 हाथ न डाला क्योंकि उस का समय अब तक न आया  
 ३१ था । और भीड़ में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया  
 और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इस से  
 ३२ अधिक चिन्ह दिखाएगा जो इस ने दिखाए । फरीसियों  
 ने लोगों को उस के विषय ये बातें चुपके चुपके करते  
 सुना और महायाजकों और फरीसियों ने उस के पकड़ने  
 ३३ के प्यादे भेजे । इस पर यीशु ने कहा मैं थोड़ी देर तक  
 और तुम्हारे साथ हूँ तब अपने भेजनेवाले के पास चला  
 ३४ जाऊंगा । तुम मुझे ढूँढोगे और न पाओगे और जहां मैं  
 ३५ हूँ वहां तुम नहीं आ सकते । यहूदियों ने आपस में  
 कहा यह कहां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे । क्या वह  
 उन के पास जाएगा जो यूनानियों में उत्तर बिस्तर  
 होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा ।  
 ३६ यह क्या बात है जो उस ने कही कि तुम मुझे ढूँढोगे  
 पर न पाओगे और जहां मैं हूँ वहां तुम नहीं आ  
 सकते ॥  
 ३७ पिछले दिन जो पर्व का मुख्य दिन है यीशु खड़ा  
 हुआ और पुकार के कहा यदि कोई पियासा हो तो मेरे

पास आकर पीए । जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा ३८  
 पवित्र शास्त्र में आया है उस के हृदय<sup>१</sup> से जीवन के  
 जल की नदियां बहेगी । उस ने यह वचन उस आत्मा ३९  
 के विषय कहा जिसे उस पर विश्वास करनेवाले पाने  
 पर थे क्योंकि आत्मा अब तक न मिला था इस कारण  
 कि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था ।  
 सो भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुन कर कहा ४०  
 सचमुच वह नवी यही है । औरों ने कहा यह मसीह है ४१  
 पर किसी किसी ने कहा क्या मसीह गलील से आएगा ।  
 क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद ४२  
 के वंश से और बैतलहम गांव से जहां दाऊद रहता  
 था आएगा । सो उस के कारण लोगों में फूट पड़ी । ४३  
 उन में से कितने उसे पकड़ना चाहते थे पर किसी ने ४४  
 उस पर हाथ न डाला ॥

तब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास ४५  
 आए और उन्होंने ने उन से कहा तुम उसे क्यों नहीं लाए ।  
 प्यादों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी ४६  
 बातें न कीं । फरीसियों ने उन को उत्तर दिया क्या तुम ४७  
 भी भरमाए गए हो । क्या सरदारों या फरीसियों में से ४८  
 किसी ने भी उस पर विश्वास किया है । पर ये लोग ४९  
 जो व्यवस्था नहीं जानते स्थापित हैं । नाकुदेमुस ने जो ५०  
 पहिले उस के पास आया और उन में से एक था उन  
 से कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी का जब तक पहिले ५१  
 उस की सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है दोषी  
 ठहराती है । उन्होंने ने उसे उत्तर दिया क्या तू भी गलील ५२  
 का है ढूँढकर देख कि गलील से कोई नवी प्रगट नहीं  
 होता । [तब<sup>२</sup> सब कोई अपने अपने घर के गए ॥ ५३

८. पर यीशु जेरुसलम पहाड़ पर गया । और भोर २  
 के फिर मन्दिर में आया और  
 सब लोग उस के पास आए और वह बैठ कर  
 उन्हें उपदेश देने लगा । तब शास्त्री और फरीसी ३  
 एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी  
 और इस को बीच में खड़ी करके उस से कहा, हे ४  
 गुरु यह स्त्री व्यभिचार करती हो पकड़ी गई है ।  
 व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों ५  
 को पत्थरवाह करें सो तू इस स्त्री के विषय क्या  
 कहता है । उन्होंने ने उस को परखने के लिये यह बात ६  
 कही कि उस पर दोष लगाने के लिये कोई गौं पाए पर

(१) यू० पेट ।

(२) ७ : ४२ से ८ : ११ तक का वाक्य अकसर पुराने हस्तलेखों में नहीं मिलता ।

७ यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा । जब वे उस से पूछते रहे तो उस ने सीधे होकर उन से कहा तुम में से जो निष्पाप हो वह पहिले उस के पत्थर ८ मारे । और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने ९ लगा । पर वे यह सुन कर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया १० और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही । यीशु ने सीधे होकर उस से कहा हे नारी वे कहाँ गए क्या किसी ने तुझ ११ पर दंड की आज्ञा न दी । उस ने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं । यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता जा और फिर पाप न करना ] ॥

१२ तब यीशु ने फिर लोगों से कहा मैं जगत की ज्योति हूँ जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा पर १३ जीवन की ज्योति पाएगा । फरीसियों ने उस से कहा तू १४ अपनी गवाही आप देता है तेरी गवाही ठीक नहीं । यीशु ने उन को उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तौभी मेरी गवाही ठीक है क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाता हूँ पर तुम नहीं १५ जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ जाता हूँ । तुम शरीर के अनुसार फैसला करते हो मैं किसी का फैसला १६ नहीं करता । और यदि मैं फैसला करूँ भी तो मेरा फैसला ठीक है क्योंकि मैं अकेला नहीं पर मैं हूँ और पिता है १७ जिस ने मुझे भेजा । तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि १८ दो जनों की गवाही ठीक होती है । एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा मेरी गवाही पिता देता १९ है जिस ने मुझे भेजा । तब उन्होंने ने उस से कहा तेरा पिता कहाँ है । यीशु ने उत्तर दिया कि न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को यदि मुझे जानते तो मेरे २० पिता को भी जानते । ये बातें उस ने मन्दिर में उपदेश करते हुए भण्डार घर में कहीं और किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उस का समय अब तक न आया था ॥

२१ उस ने उन से फिर कहा मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूँढोगे और अपने पाप में मरोगे । जहाँ मैं जाता २२ हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते । इस पर यहूदियों ने कहा क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि २३ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते । उस ने उन से कहा तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूँ तुम संसार के २४ हो मैं संसार का नहीं । इसलिये मैं ने तुम से कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे क्योंकि यदि तुम विश्वास न २५ करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे । उन्होंने ने उस से कहा तू कौन है । यीशु ने उन से कहा वही हूँ ॥

(१) या । यह क्या बात है कि मैं तुम से बातें करता हूँ ।

जो तुम से कहता आया हूँ । तुम्हारे विषय मुझे बहुत २६ कुछ कहना और फैसला करना है पर मेरा भेजनेवाला सच्चा है और जो मैं ने उस से सुना है वही जगत से कहता हूँ । वे न समझे कि हम से पिता के विषय २७ कहता हूँ । सो यीशु ने कहा जब तुम मनुष्य के पुत्र को २८ ऊँचे पर चढाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और आप ने कुछ नहीं करता पर जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ । और मेरा भेजनेवाला मेरे २९ साथ है उस ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जिस से वह प्रसन्न होता है । वह ये बातें ३० कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया ॥

सो यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने ने उस को ३१ प्रतीति की थी कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चले ठहरोगे । और सत्य को जानोगे ३२ और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा । उन्होंने ने उस को उत्तर ३३ दिया कि हम तो इब्राहीम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए फिर तू क्योंकर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे । यीशु ने उन को उत्तर दिया मैं ३४ तुम से सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है । और दास सदा घर में नहीं रहता ३५ पुत्र सदा रहता है । सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो ३६ सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे । मैं जानता हूँ कि तुम ३७ इब्राहीम के वंश से हो पर मेरा वचन तुम में नहीं समाता<sup>२</sup> इसलिये तुम मुझे मार डालना चाहते हो । मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है ३८ और तुम वही करते रहते हो जो अपने पिता से सुना है । उन्होंने ने उस को उत्तर दिया कि हमारा पिता तो ३९ इब्राहीम है । यीशु ने उन से कहा यदि तुम इब्राहीम के सन्तान होते तो इब्राहीम के से काम करते । पर अब ४० तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिस ने तुम्हें वह सत वचन बताया जो परमेश्वर से सुना यह तो इब्राहीम ने न किया था । तुम अपने पिता के से ४१ काम करते हो । उन्होंने ने उस से कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे हमारा एक पिता परमेश्वर है । यीशु ने उन ४२ से कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझ से प्रेम रखते क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ मैं आप से नहीं आया पर उसी ने मुझे भेजा । तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते । इसलिये कि मेरा ४३ वचन सुन नहीं सकते । तुम अपने पिता शैतान<sup>३</sup> से हो ४४

(२) या । बढ़ने पाता ।

(३) यू० । इबलीस ।

और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरम्भ से खूनी है और सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उस में है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वह

४५ झूठा और झूठ का पिता है। पर मैं जो सच बोलता हूँ

४६ इसी लिये तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है और यदि मैं सच बोलता हूँ

४७ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इस लिये नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो।

४८ यह सुन यहूदियों ने उस से कहा क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा

४९ है। यीशु ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्टात्मा नहीं पर मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम

५० मेरा निरादर करते हो। पर मैं अपनी बढ़ाई नहीं चाहता एक तो है जो चाहता और फैसला करता है।

५१ मैं तुम से सच सच कहता हूँ यदि कोई मेरी बात को

५२ मानेगा तो वह कभी मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उस से कहा अब हम ने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है इब्राहीम मर गया और नबी भी मर गए हैं और तू कहता है कि यदि कोई मेरी बात को मानेगा तो वह

५३ कभी मृत्यु का स्वाद न चखेगा। क्या तू हमारे पिता इब्राहीम से बढ़ा है जो मर गया और नबी भी मर गए

५४ तू अपने आप को क्या ठहराता है। यीशु ने उत्तर दिया यदि मैं आप अपनी महिमा करूँ तो मेरी महिमा कुछ नहीं मेरी महिमा करनेवाला मेरा पिता है जिसे तुम

५५ कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। और तुम ने तो उसे नहीं जाना पर मैं उसे जानता हूँ और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा पर मैं उसे जानता और उस के वचन को मानता हूँ।

५६ तुम्हारा पिता इब्राहीम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उस ने देखा और आनन्द किया।

५७ यहूदियों ने उस से कहा अब तक तू पचास बरस का

५८ नहीं फिर भी तू ने इब्राहीम को देखा है। यीशु ने उन से कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि इब्राहीम के होने से पहिले मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए पर यीशु छिप कर मन्दिर से निकल गया ॥

६. जाने हुए उस ने एक मनुष्य को देखा जो

जन्म का अंधा था। और उस के चेलों ने उस से पूछा हे रब्बी किस ने पाप किया कि यह अंधा जन्मा इस मनुष्य ने या उस के माता पिता ने।

१ यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इस ने न इस के माता पिता

ने पर यह इसलिये हुआ कि परमेश्वर के काम उस में प्रगट हों। जिस ने मुझे भेजा है हमें उस के काम दिन ४

ही दिन में करना अवश्य है वह रात आनेवाली है जिस में कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ ५

तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कह कर उस ने भूमि ६

पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस की आंखों पर लगाकर, उस से कहा जाकर शीलोह ७

के कुंड में धो ले (जिस का अर्थ भेजा हुआ है) सो उस ने जाकर धोया और देखते हुए आया। तब पड़ोसी और ८

जिन्होंने पहिले उसे भीख मांगते देखा या कहने लगे क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था।

कितनों ने कहा यह वही है औरों ने कहा नहीं पर उस ९

के समान है उस ने कहा मैं वही हूँ। तब वे उस से १०

पूछने लगे तेरी आंखें क्यांकर खुल गईं। उस ने ११

उत्तर दिया कि यीशु नाम एक मनुष्य ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझ से कहा शीलोह में जाकर धो ले सो मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने १२

उस से पूछा वह कहाँ है। उस ने कहा मैं नहीं जानता ॥

लोग उसे जो पहिले अंधा था फरीसियों के पास १३

ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उस की १४

आंखें खोली थीं वह विश्राम का दिन था। फिर फरीसियों १५

ने भी उस से पूछा तेरी आंखें किस रीति से खुलीं। उस ने उन से कहा उस ने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई फिर मैं ने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर १६

कई फरीसी कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं क्योंकि वह विश्राम का दिन नहीं मानता। औरों ने कहा पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है। सो उन में फूट पड़ी। उन्होंने उस अंधे से १७

फिर कहा उस ने जो तेरी आंखें खोलीं तो तू उस के विषय क्या कहता है। उस ने कहा वह नबी है। पर १८

यहूदियों को प्रतीति न आई कि यह अंधा था और अब देखता है जब तक उन्होंने उस के माता पिता को जिस की आंखें खुल गईं बुलाकर, उन से न पूछा कि क्या १९

यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था। फिर अब वह क्योंकर देखता है। उस के माता २०

पिता ने उत्तर दिया हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था। पर हम नहीं जानते कि २१

अब क्योंकर देखता है और न यह जानते हैं कि किस ने उस की आंखें खोलीं वह सयाना है उसी से पूछ लो वह अपने विषय आप कह देगा। ये बातें उस के २२

माता पिता ने इसलिये कहीं कि वे यहूदियों से डरते थे क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई कहे

२३ कि वह मसीह है तो सभा से निकाला जाए । इसी कारण उस के माता पिता ने कहा वह सयाना है उसी २४ से पूछ लो । तब उन्होंने ने उस मनुष्य को जो आया था दूसरी बार बुलाकर उस से कहा परमेश्वर की महिमा २५ कर हम जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है । उस ने उत्तर दिया मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ । २६ उन्होंने ने उस से फिर कहा कि उस ने तेरे साथ क्या २७ किया और किस तरह तेरी आंखें खोलीं । उस ने उन से कहा मैं तो तुम से कह चुका और तुम ने न सुना अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो क्या २८ तुम भी उस के चेले होना चाहते हो । तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले तू ही उस का चेला २९ है हम तो मूसा के चेले हैं । हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें कीं पर इस मनुष्य को ३० नहीं जानते कि कहां का है । उस ने उन को उत्तर दिया यह तो अचम्भे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहां ३१ का है तौभा उस ने मेरी आंखें खोल दीं । हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त होता और उस की इच्छा पर चलता ३२ है तो वह उस की सुनता है । यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो । ३३ यदि यह जन परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ ३४ न कर सकता । उन्होंने ने उस को उत्तर दिया कि तू तो बिलकुल पापी में जन्मा है, तू क्या हमें सिखाता है और उन्होंने ने उसे बाहर निकाल दिया ॥

३५ यीशु ने सुना कि उन्होंने ने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उस से भेंट हुई तो कहा कि क्या तू ३६ परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है । उस ने उत्तर दिया कि हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास ३७ करूं । यीशु ने उस से कहा तू ने उसे देखा भी है और ३८ जो तेरे साथ बातें करता है वही है । उस ने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और उसे प्रणाम किया । तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिये आया हूँ कि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं । ४० जो फरीसी उस के साथ थे उन्होंने ने ये बातें सुन कर उस से कहा क्या हम भी अंधे हैं । यीशु ने उन से कहा यदि तुम अंधे होते तो तुम्हें पाप न होता पर अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिये तुम्हारा पाप बना रहता है ॥

१०. मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि जो द्वार से भेड़शाला में नहीं जाता पर और

२ किसी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है । पर

जो द्वार से भीतर आता है वह भेड़ों का रखवाला है । उस के लिये द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उस का शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है । और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उन के आगे आगे चलता है और भेड़ें उस के पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उस का शब्द पहचानती हैं । पर वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी पर उस से भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानतीं । यीशु ने उन से यह दृष्टान्त कहा पर वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हम से कहता है ॥

तो यीशु ने उन से फिर कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ । जितने मुझ से पहिले आए वे सब चोर और डाकू हैं पर भेड़ों ने उन की न सुनी । द्वार मैं हूँ यदि कोई मेरे द्वार भीतर जाए तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा । चोर किसी और काम को नहीं केवल चोरी और घात और नाश करने को आता है । मैं इसलिये आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं । अच्छा रखवाला मैं हूँ अच्छा रखवाला भेड़ों के लिये अपना प्राण देता है । मज़दूर जो न रखवाला है और न भेड़ों का मालिक है भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तित्तर बित्तर कर देता है । यह इसलिये होता है कि वह मज़दूर है और उस को भेड़ों की चिन्ता नहीं । अच्छा रखवाला मैं हूँ जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिये अपना प्राण देता हूँ । और मेरी ओर भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं मुझे उन का भी लाना अवश्य है वे मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही भुण्ड और एक ही रखवाला होगा । पिता इसलिये मुझ से प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर लेऊँ । कोई उस को मुझ से लीनता नहीं बरन मैं उसे आप ही देता हूँ मुझे उस के देने का भी अधिकार है और उस के फिर लेने का भी अधिकार है । यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली ॥

इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी । उन में से बहुतेरे कहने लगे कि उस में दुष्टात्मा है और वह पागल है उस की क्यों सुनते हो । औरों ने कहा ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिस में दुष्टात्मा हो क्या दुष्टात्मा अंधों की आंखें खोल सकता है ॥



२२ यरूशलेम में स्थापन-पर्ब्य हुआ और जाड़े का  
 २३ समय था । और यीशु मन्दिर में सुलैमान के ओसारे में  
 २४ फिर रहा था । तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा  
 २५ तू हमारे मन को कब तक दुबधा में रखेगा यदि तू  
 २६ मसीह है तो हम से साफ साफ कह दे । यीशु ने उन्हें  
 २७ उत्तर दिया कि मैं ने तुम से कह दिया और तुम प्रतीति  
 २८ नहीं करते जो काम मैं अपने पिता के नाम से  
 २९ करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं । पर तुम इसलिये  
 ३० प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं  
 ३१ हो । मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता  
 ३२ हूँ और वे मेरे पीछे हो लेती हैं । और मैं उन्हें अनन्त  
 ३३ जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई  
 ३४ उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा । मेरा पिता जिस ने  
 ३५ उन्हें मुझ को दिया है सब से बड़ा है और कोई पिता  
 ३६ के हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता । मैं और पिता एक  
 ३७ हैं । यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर  
 ३८ उठाए । इस पर यीशु ने उन से कहा कि मैं ने तुम्हें  
 ३९ अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं  
 ४० उन में से किस काम के लिये मुझे पत्थरवाह करते हो ।  
 ४१ यहूदियों ने उस को उत्तर दिया कि भले काम के लिये  
 ४२ हम तुम्हें पत्थरवाह नहीं करते परन्तु परमेश्वर की निन्दा  
 ४३ के लिये और इसलिये कि तू मनुष्य होकर अपने आप  
 ४४ को परमेश्वर बनाता है । यीशु ने उन्हें उत्तर दिया  
 ४५ क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैं ने कहा  
 ४६ तुम ईश्वर हो । यदि उस ने उन्हें ईश्वर कहा जिन के  
 ४७ पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की  
 ४८ बात लाप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र  
 ४९ ठहराकर जगत में भेजा है क्या तुम उस से कहते हो  
 ५० कि तू निन्दा करता है इसलिये कि मैं ने कहा मैं  
 ५१ परमेश्वर का पुत्र हूँ । यदि मैं अपने पिता के काम  
 ५२ नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो । पर जो मैं करता  
 ५३ हूँ तो यदि मेरी प्रतीति न करो तौभी उन कामों  
 ५४ की प्रतीति करो कि तुम जानो और समझो कि पिता  
 ५५ मुझ में है और मैं पिता में हूँ । तब उन्होंने ने फिर  
 ५६ उसे पकड़ना चाहा पर वह उन के हाथ से निकल  
 गया ॥

५७ वह फिर यरदन के पार उस जगह चला गया  
 जहां यूहन्ना पहिले बपतिसमा देता था और वहीं रहा ।  
 ५८ और बहुतेरे उस के पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने  
 तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया पर जो कुछ यूहन्ना ने  
 ५९ इस के विषय कहा था वह सब सच था । और  
 ६० वहां बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया ॥

## ११. मरयम और उस की बहिन मरथा के

गांव बैतनिय्याह का लाज़र नाम  
 एक मनुष्य बीमार था । यह वही मरयम थी जिस ने प्रभु २  
 पर अतर ढालकर उस के पांवों को अपने बालों से  
 पोछा इसी का भाई लाज़र बीमार था । सो उस की ३  
 बहिनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख जिस से तू  
 प्रीति रखता है वह बीमार है । यह सुनकर यीशु ने ४  
 कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परन्तु परमेश्वर की महिमा  
 के लिये है कि उस के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा  
 हो । और यीशु मरथा और उस की बहिन और लाज़र ५  
 से प्रेम रखता था । सो जब उस ने सुना कि वह बीमार ६  
 है तो जिस जगह था वहां दो दिन और रहा । तब ७  
 इस के पीछे उस ने चेलों से कहा कि आओ हम फिर  
 यहूदिया को चलें । चेलों ने उस से कहा हे रब्बी अभी ८  
 तो यहूदी तुम्हें पत्थरवाह करना चाहते थे और क्या तू  
 फिर भी वहीं जाता है । यीशु ने उत्तर दिया क्या दिन के ९  
 बारह घंटे नहीं होते यदि कोई दिन को चले तो ठोकर  
 नहीं खाता क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है ।  
 पर यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है क्योंकि १०  
 उस में उजाला नहीं । उस ने ये बातें कहीं और इस ११  
 के पीछे उन से कहने लगा कि हमारा भित्र लाज़र सो  
 गया है पर मैं उसे जगाने जाता हूँ । सो चेलों ने उस १२  
 से कहा हे प्रभु यदि वह सो गया है तो बच जायगा ।  
 यीशु ने तो उस की मृत्यु के विषय कहा था पर वे १३  
 समझे कि उस ने नींद से सो जाने के विषय कहा ।  
 तब यीशु ने उन से साफ साफ कह दिया कि लाज़र १४  
 मर गया । और तुम्हारे कारण आनन्दित हूँ कि मैं १५  
 वहां न था जिस से तुम विश्वास करो पर अब आओ  
 हम उस के पास चलें । तब तोमा ने जो दिदुमुस कह- १६  
 लाता है अपने साथ के चेलों से कहा आओ हम भी  
 उस के साथ मरने को चलें ॥

सो यीशु ने आकर जाना कि उसे क्रबर में १७  
 रखे चार दिन हो चुके हैं । बैतनिय्याह यरूश- १८  
 लेम से कोई कोस एक दूर था । और बहुत से यहूदी १९  
 मरथा और मरयम के पास उन के भाई के विषय  
 शान्ति देने आये थे । सो मरथा यीशु के आने का समा- २०  
 चार सुन कर उस से भेंट करने को गई पर मरयम  
 घर में बैठी रही । मरथा ने यीशु से कहा हे प्रभु यदि तू २१  
 यहां होता तो मेरा भाई न मरता । और अब भी मैं २२  
 जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगे परमेश्वर  
 तुम्हें देगा । यीशु ने उस से कहा तेरा भाई जी उठेगा । २३  
 मरथा ने उस से कहा मैं जानती हूँ कि अन्तिम दिन में २४

२५ पुनस्तथान<sup>१</sup> के समय वह जी उठेगा । यीशु ने उस से कहा पुनस्तथान<sup>२</sup> और जीवन मैं ही हूँ जो मुझ पर  
 २६ विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तौभी जीएगा । और जो कोई जीता और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी  
 २७ न मरेगा क्या तू इस बात पर विश्वास करती है । उस ने उस से कहा हाँ हे प्रभु मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आनेवाला था  
 २८ वह तू ही है । यह कहकर वह चली गई और अपनी बहिन मरयम को चुपके से बुलाकर कहा गुरु यहीं हैं  
 २९ और तुझे बुलाता है । वह सुनते ही तुरन्त उठकर  
 ३० उस के पास आई । यीशु अभी गांव में नहीं पहुँचा था पर उसी स्थान में था जहाँ मरथा ने उस से भेंट की थी ।  
 ३१ सो जो यहूदी उस के साथ घर में थे और उसें शान्ति दे रहे थे यह देखकर कि मरयम तुरन्त उठके बाहर गई यह समझ कर कि वह क़बर पर राने को जाती है उस के पीछे हो लिये । जब मरयम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उस के पांवों पड़के कहा हे प्रभु  
 ३२ यदि तू यहाँ हाँता तो मेरा भाई न मरता । जब यीशु ने उस को और उन यहूदियों को जो उस के साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर<sup>३</sup> कहा तुम ने उसे कहा रक्खा है ।  
 ३४, ३५ उन्होंने ने उस से कहा हे प्रभु चलकर देख ले । यीशु के आंसू बहने लगे । तब यहूदी कहने लगे देखा वह उस से कैसी प्रीति रखता था । पर उन में से कितनों ने कहा क्या यह जिस ने अंधे की आंखें खोलीं यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता । यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर क़बर पर आया वह गुफा थी  
 ३९ और एक पत्थर उस पर धरा था । यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ । उस मरे हुए की बहिन मरथा उस से कहने लगी हे प्रभु वह तो अब बसाता है क्योंकि उसे मरे चार दिन हो गए । यीशु ने उस से कहा क्या मैं ने तुझ से न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी । तब उन्होंने ने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने मेरी सुन ली है ।  
 ४२ और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है पर जो भीड़ आस पास खड़ी है उन के कारण मैं ने यह कहा  
 ४३ इसलिये कि वे विश्वास करें कि तू ने मुझे मेजा । यह

कहकर उस ने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाज़र निकल आ । जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए  
 निकल आया और उस का मुँह अंगोछे से लिपटा हुआ था । यीशु ने उन से कहा उसे खोलो और जाने दो ॥

तब जो यहूदी मरयम के यहाँ आए थे और उस का यह काम देखा था उन में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया । पर उन में से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया ॥

इस पर महायाजकों और फरीसियों ने सभा इकट्ठी करके कहा हम करते क्या हैं यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है । यदि हम उसे योर्ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास कर लेंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति को भी छीन लेंगे । तब उन में से क्राइफा नाम एक जन ने जो उस बरस का महायाजक था उन से कहा तुम कुछ नहीं जानते, और न यह सोचते हो कि तुम्हारे लिये भला है कि हमारे लोगों के लिये एक मनुष्य मरे और न यह कि सारी जाति नाश हो । यह बात उस ने अपनी ओर से न कही पर उस बरस का महायाजक हाँकर नबूवत की कि यीशु उस जाति के लिये मरेगा, और न केवल उस जाति के लिये बरन इसलिये भी कि परमेश्वर के तित्तर बित्तर सन्तानों को एक कर दे । सो उसी दिन से वे उस के मार डालने की सम्मति करने लगे ॥

इसलिये यीशु उस समय से यहूदियों में प्रगट होकर न फिरा पर वहाँ से जंगल के निकट के देश में इफ्राईम नाम एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा । यहूदियों का फ़सह निकट था और बहुतरे लोग फ़सह से पहिले दिहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें । सो वे यीशु को हूँदने और मन्दिर में खंडे होकर आपस में कहने लगे तुम क्या समझते हो क्या वह पन्थ में नहीं आएगा । और महायाजकों और फरीसियों ने भी आज्ञा दे रक्खी थी कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए इसलिये कि उसे पकड़ लें ॥

१२. फिर यीशु फ़सह से छः दिन पहिले बैतनिय्याह में आया

जहाँ लाज़र था जिसे यीशु ने मरे हुआओं में से जिलाया था । वहाँ उन्होंने ने उस के लिये बियारी बनाई और मरथा सेवा कर रही थी और लाज़र उन में से एक था जो उस के साथ खाने को बैठे थे । तब मरयम ने जटामासी का आध सेर बहुमोल खरा अतर लेकर यीशु

(१) यू० । जी ३६में में । या मृतकोस्थान में ।

(२) यू० । जी ३६ना ।

(३) यू० अपने आप को बैचैन करके ।

के पांवों पर ढाला और अपने बालों से उस के पांव पोछे  
 ४ और अंतर की गंध से घर सुगन्धित हो गया । पर उस  
 के चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो  
 ५ उसे पकड़वाने पर था कहने लगा । यह अंतर तीन सौ  
 ६ दीनार<sup>१</sup> में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया । उस  
 ने यह बात इसलिये न कही कि उसे कंगालों की चिन्ता  
 थी पर इसलिये कि वह चोर था और उस के पास उन  
 की थैली रहती थी और उस में जो कुछ ढाला जाता था  
 ७ सो निकाल लेता था । यीशु ने कहा उसे मेरे गाड़े जाने  
 ८ के दिन के लिये रखने दे । कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा  
 रहते हैं पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा ॥

९ यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह  
 वहां है और वे न केवल यीशु के कारण आए पर इस-  
 लिये भी कि लाज़र को देखें जिसे उस ने मरे हुआ में से  
 १० जिलाया था । तब महायाजकों ने लाज़र को भी मार  
 ११ डालने की सम्मति की । क्योंकि उस के कारण बहुत से  
 यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया ॥

१२ दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए  
 १३ थे यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है । खजूर  
 की डालियां लीं और उस से भेंट करने को निकले  
 और पुकारने लगे कि हाशाना धन्य इस्राईल का राजा  
 १४ जो प्रभु के नाम से आता है । जब यीशु को एक  
 गदहे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा जैसा लिखा  
 १५ है कि, हे सिय्योन की बेटी मत डर देख तैरा राजा  
 १६ गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है । उस  
 के चले ये बातें पहिले न समझे थे पर जब यीशु  
 की महिमा प्रगट हुई तो उन का स्मरण आया कि  
 ये बातें उस के विषय लिखी हुई थीं और लोगों ने  
 १७ उस से ऐसा बरताव किया था । सो भीड़ के लोगों ने  
 गवाही दी जो उस समय उस के साथ थे जब उस ने  
 लाज़र को क्रबर में से बुलाकर मरे हुआ में से जिलाया  
 १८ था । इसी कारण लोग उस से भेंट करने को आए कि  
 उन्होंने ने सुना था कि उस ने यह चिन्ह दिखाया था ।  
 १९ सो फरीसियों ने आपस में कहा सोचो तो कि तुम से  
 कुछ नहीं बनता देखो संसार उस के पीछे हो चला है ॥

२० जो लोग पर्व में भजन करने आए थे उन में स  
 २१ कई यूनानी थे । सो इन्होंने ने गलील के बैतसैदा के  
 रहनेवाले फिलिप्पुस के पास आकर उस से विनती की  
 २२ कि हे साहिब हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं । फिलि-  
 प्पुस ने आकर अन्द्रियास से कहा तब अन्द्रियास और

फिलिप्पुस ने आकर यीशु से कहा । इस पर यीशु ने उन से २३  
 कहा वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा  
 ही । मैं तुम से सच सच कहता हूँ जब तक गेहूँ का २४  
 दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अंकला रहता  
 है पर जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है । जो २५  
 अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है  
 और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता  
 है वह अनन्त जीवन के लिये उस की रक्षा करेगा ।  
 यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पोछे हो ले और जहां २६  
 मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी हांगा यदि कोई मेरी सेवा  
 करे तो पिता उस का आदर करेगा । अब मेरा जी घब- २७  
 राता है और मैं क्या कहूँ । हे पिता मुझे इस घड़ी से  
 बचा । पर मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ । हे २८  
 पिता अपन नाम की महिमा कर । तब यह आकाश-  
 वाणी हुई कि मैं ने उस की महिमा की है और फिर  
 भी करूंगा । तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने २९  
 ने कहा कि बादल गरजा औरों ने कहा कोई स्वर्गदूत  
 उस से बोला । इस पर यीशु ने कहा यह शब्द मरे ३०  
 लिये नहीं पर तुम्हारे लिये आया है । अब इस जगत ३१  
 का न्याय होता है अब इस जगत का सरदार निकाल  
 दिया जायगा । और मैं याद पृथिवी से ऊंचे पर चढ़ाया ३२  
 जाऊंगा तो सब को अपने पास खींचूंगा । यह कहने में ३३  
 उस ने यह पता दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरने को  
 था । इस पर लोगों ने उस से कहा कि हम ने व्यवस्था ३४  
 की यह बात सुनी है कि मसीह सदा ला रहेगा फिर तू  
 क्योंकर कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया  
 जाना अवश्य है यह मनुष्य का पुत्र कौन है । यीशु ३५  
 ने उन से कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच  
 है । जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले  
 चलो न हो कि अधिकार तुम्हें आ धरे । जो अधिकार  
 में चलता है वह नहीं जानता कि कधर जाता है ।  
 जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ३६  
 कि तुम ज्योति के सन्तान होओ ॥

ये बातें कहकर यीशु चला गया और उन से छिपा  
 रहा । और उस ने उन के सामने इतने चिन्ह दिखाए ३७  
 तौभी उन्होंने उस पर विश्वास न किया । कि यशायाह ३८  
 नबी का बचन पूरा हो जो उस ने कहा कि हे प्रभु  
 हमारे समाचार की किस ने प्रतीत की है और प्रभु का  
 भुजवल किस पर प्रगट हुआ । इस कारण वे विश्वास ३९  
 न कर सके क्योंकि यशायाह ने फिर कहा । उस ने उन ४०  
 की आंखें अंधी और उन का मन कठोर किया है ऐसा  
 न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और

(१) देखो मत्ती १८ : २८ ।

- ४१ फिर और मैं उन्हें चंगा करूँ। यशायाह ने ये बातें इस लिये कहीं कि उस की महिमा देखी और उस ने उस के  
 ४२ विषय बातें कीं। तौभी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया परन्तु फरीसियों के कारण प्रकट में न मानते थे ऐसा न हो कि सभा में से निकाले  
 ४३ जाएँ। क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उन को परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी ॥
- ४४ यीशु ने पुकार कर कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं बरन मेरे भेजनेवाले पर  
 ४५ विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजनेवाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंध-  
 ४६ कार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने का नहीं पर जगत का उद्धार करने का आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उस को दोषी ठहरानेवाला तो एक है। जो वचन मैं ने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैं ने अपनी आंर से बातें नहीं कीं परन्तु पिता जिस ने मुझे भेजा उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ।  
 ५० और मैं जानता हूँ कि उस की आज्ञा अनन्त जीवन है इसलिये जो कुछ मैं बोलता हूँ जैसा पिता ने मुझ से  
 ५१ कहा है वैसा ही बोलता हूँ ॥

### १३. फ़सह के पर्व से पहिले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी

- आ पहुँची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊँ तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था अन्त तक प्रेम रखता रहा। और जब शैतान<sup>१</sup> शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो बियारी के समय, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, बियारी से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बरतन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उस की कमर बंधी थी उस से पोछने लगा। तब वह शमौन पतरस के पास आया। इस ने उस से कहा हे प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है। यीशु ने उस को उत्तर दिया कि जो

(१) यू०। इबलीस।

मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता पर इस के पीछे सम-भेगा। पतरस ने उस से कहा तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुन यीशु ने उस से कहा यदि मैं तुम्हें न धोऊँ तो मेरे साथ तेरा कुछ साझा नहीं। शमौन पतरस ने उस से कहा हे प्रभु तौ मेरे पांव ही नहीं बरन हाथ और गिर भां धो दे। यीशु ने उस से कहा जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयाजन नहीं पर वह विलकुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो पर सब के सब नहीं। वह तौ अपने पकड़वानेवाले को जानता था इसी लिये उस ने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं ॥

जब वह उन के पांव धो चुका और आने कपड़े पहिन कर फिर बैठ गया तो उन से कहने लगा क्या तुम समझे कि मैं ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि वही हूँ। मेा यदि मैं ने प्रभु और गुरु, होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। क्योंकि मैं ने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैं ने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुम से सच सच कहता हूँ दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भंजा हुआ अपने भेजनेवाले से। तुम जो ये बातें जानते हो यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय नहीं कहता। जिन्हें मैं ने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। पर यह इसलिये है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उस ने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उस के होने से पहिले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता है ॥

ये बातें कहकर यीशु आत्मा में धराराया और यह गवाही दी कि मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चले यह संदेह करते हुए कि वह किस के विषय कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस के चेलों में से एक जिस से यीशु प्रेम देखने लगे। उस के चेलों में से एक जिस से यीशु प्रेम रखता था यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। सो शमौन पतरस ने उस की ओर सैन करके पूछा कि बता तो वह किस के विषय कहता है। तब उस ने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुक कर पूछा हे प्रभु वह कौन है। यीशु ने उत्तर दिया जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा

(२) या प्रेरित।

(३) यू०। लोटा।

हुबोकर दूंगा वही है । और उस ने टुकड़ा बुबोकर  
 २७ शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया । और  
 टुकड़ा लेते ही शैतान उस में समा गया । तब यीशु  
 २८ ने उस से कहा जो तू करता है तुरन्त कर । पर  
 बैठनेवालों? में से किसी ने न जाना कि उस ने यह  
 २९ बात उस से किस लिये कही । यहूदा के पास थंती  
 रहती थी इसलिये किसी किसी ने समझा कि यीशु  
 उस से कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिये चाहिए  
 ३० वह मोल ले या यह कि कज्जालों को कुछ दे । सो वह  
 टुकड़ा लेकर तुरन्त बाहर चला गया और रात थी ॥  
 ३१ जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा अब  
 मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा  
 ३२ उस में हुई । और परमेश्वर भी अपने में उस को  
 ३३ महिमा करेगा बरन तुरन्त करेगा । हे बालको में और  
 थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ । तुम मुझे दूढ़ोगे और जैसा  
 मैं ने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूँ वहां तुम  
 नहीं आ सकते वैसा ही मैं अब तुम से भी कहता हूँ ।  
 ३४ मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम  
 रखो । जैसा मैं ने तुम से प्रेम रखवा है वैसा ही तुम  
 ३५ भी एक दूसरे से प्रेम रखो । यदि आपस में प्रेम  
 रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चले हो ॥  
 ३६ शमौन पतरस ने उस से कहा हे प्रभु तू कहां  
 जाता है । यीशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूँ  
 वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता पर इस के बाद  
 ३७ मेरे पीछे आएगा । पतरस ने उस से कहा हे प्रभु अभी  
 मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता मैं तो तेरे लिये अपना  
 ३८ प्राण दूंगा । यीशु ने उत्तर दिया क्या तू मेरे लिये अपना  
 प्राण देगा । मैं तुझ से सच सच कहता हूँ कि मुर्ग  
 बांग न देगा जब तक तू तीन-बार मुझ से न मुकरेगा ॥

### १४. तुम्हारा मन न धर्राए परमेश्वर

पर विश्वास रखते हो २

२ मुझ पर भी विश्वास रखो । मेरे पिता के घर में  
 बहुत से रहने के स्थान हैं यदि न होते तो मैं तुम से  
 कह देता । मैं तुम्हारे लिये जगह तैयार करने जाता  
 ३ हूँ । यदि मैं जाकर तुम्हारे लिये जगह तैयार करूँ  
 तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां  
 ४ मैं रहूँ वहां तुम भी रहो । और जहां मैं जाता हूँ  
 ५ तुम वहां का मार्ग जानते हो । तोमा ने उस से कहा  
 हे प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जाता है तो मार्ग कैसे

(१) यू० । लेटनेवालों ।

(२) या । रखो ।

जानें । यीशु ने उस से कहा मार्ग और सच्चाई और ६  
 जीवन में ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास ७  
 नहीं पहुंचता । यदि तुम ने मुझे जाना होता ७  
 तो मेरे पिता को भी जानते अब से उसे जानते हो और  
 उसे देखा भी । फिलिप्पुस ने उस से कहा हे प्रभु पिता ८  
 को हमें दिखा दे यही हमारे लिये बहुत है । यीशु ने ९  
 उस से कहा हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे  
 साथ हूँ और क्या मुझे नहीं जानता । जिस ने मुझे  
 देखा उस ने पिता को देखा । तू क्योंकर कहता है कि  
 पिता को हमें दिखा । क्या तू प्रतीति नहीं करता कि १०  
 मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है ये बातें जो मैं तुम से  
 कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता परन्तु पिता मुझ में  
 रहकर अपने काम करता है । मेरी प्रतीति करो कि मैं ११  
 पिता में हूँ और पिता मुझ में है नहीं तो कामों ही के  
 कारण मेरी प्रतीति करो । मैं तुम से सच सच कहता १२  
 हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं  
 करता हूँ वह भी करेगा बरन इन से भी बड़े काम  
 करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ । और जो कुछ तुम १३  
 मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा  
 पिता की महिमा हो । यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ १४  
 मांगोगे तो मैं उसे करूंगा । यदि तुम मुझ से प्रेम १५  
 रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे । और मैं पिता १६  
 से बिनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक  
 देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे । अर्थात् सत्य का १७  
 आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह  
 न उसे देखता और न उसे जानता है । तुम उसे जानते  
 हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में १८  
 होगा । मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा मैं तुम्हारे पास आता १८  
 हूँ । और थोड़ी देर है कि संसार मुझे फिर न देखेगा १९  
 पर तुम मुझे देखोगे इसलिये कि मैं जीता हूँ तुम भी  
 जीते रहोगे । उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में २०  
 हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में । जिस के पास २१  
 मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझ से प्रेम  
 रखता है और जो मुझ से प्रेम रखता है उस से मेरा  
 पिता प्रेम रखेगा और मैं उस से प्रेम रखूंगा और अपने २२  
 आप को उस पर प्रगट करूंगा । उस यहूदा ने जो इस्क-  
 रियोती न था उस से कहा हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने  
 आप को हम पर प्रगट किया चाहता है और संसार पर  
 नहीं । यीशु ने उस को उत्तर दिया यदि कोई मुझ से प्रेम २३  
 रखे तो वह मेरे वचन मानेगा और मेरा पिता उस से  
 प्रेम रखेगा और हम उस के पास आएंगे और उस के  
 साथ बास करेंगे । जो मुझ से प्रेम नहीं रखता वह २४

मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं बरन पिता का है जिस ने मुझे भेजा ॥

- २५ ये बातें मैं ने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम से  
 २६ कहीं । पर सहायक अर्थात् पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे  
 नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो  
 कुछ मैं ने तुम से कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करा-  
 २७ एगा । मैं तुम्हें शान्ति दिए जाता हूं अपनी शान्ति तुम्हें  
 देता हूं जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता ।  
 २८ तुम्हारा मन न घबराए और न डरे । तुम ने सुना कि  
 मैं ने तुम से कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर  
 आता हूं । यदि तुम मुझ से प्रेम रखते तो इस बात  
 से आनन्दित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं  
 २९ क्योंकि पिता मुझ से बड़ा है । और मैं ने अब इस क  
 होने से पहिले तुम से कह दिया है कि जब वह हो  
 ३० जाए तो तुम प्रतीति करो । मैं अब से तुम्हारे साथ और  
 बहुत बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार  
 ३१ आता है और मुझ में उस का कुछ नहीं । पर यह  
 इसलिये होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम  
 रखता हूं और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं  
 वैसे ही करता हूं । उठो यहां से चलो ॥

- २ १५. सबो दाखलता में हूं और मेरा पिता  
 किसान है । जो डाली मुझ में  
 है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो  
 ३ फलती है उसे वह छांटता है कि और फले । तुम तो उस  
 वचन के कारण जो मैं ने तुम से कहा है शुद्ध हो ।  
 ४ तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में । जैसे डाली  
 दाखलता में यदि बनी न रहे तो अपने आप से नहीं  
 फल सकती वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहे  
 ५ तो नहीं फल सकते । मैं दाखलता हूं तुम डालियां  
 हो । जो मुझ में बना रहता है और मैं उस में वह  
 बहुत फलता है क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ  
 ६ नहीं कर सकते । यदि कोई मुझ में बना न रहे तो  
 वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता  
 है और लोग उन्हें बटोरकर आग में भोंक देते हैं और  
 ७ वे जल जाती हैं । यदि तुम मुझ में बने रहो और  
 मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहे मांगो और वह  
 ८ तुम्हारे लिये हो जाएगा । मेरे पिता की महिमा इसी  
 में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब ही तुम  
 ९ मेरे चले उठोगे । जैसा पिता ने मुझ से प्रेम रक्खा वैसे  
 १० ही मैं ने तुम से प्रेम रक्खा मेरे प्रेम में बने रहो । यदि

तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहेगे  
 जैसा कि मैं ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है  
 और उस के प्रेम में बना रहता हूं । मैं ने ये बातें तुम ११  
 से इसलिये कही हैं कि मेरा आनन्द तुम में रहे और  
 तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए । मेरी आज्ञा यह है कि १२  
 जैसा मैं ने तुम से प्रेम रक्खा वैसे ही तुम भी एक दूसरे  
 से प्रेम रक्खो । इस से बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि १३  
 कोई अपने मित्रों के लिये अपना प्राण दे । जो कुछ मैं १४  
 तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उस करो तो मेरे मित्र हो ।  
 अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं १५  
 जानता कि उस का स्वामी क्या करता है पर मैं ने  
 तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैं ने जो बातें अपने पिता  
 से सुनीं वे सब तुम्हें बता दीं । तुम ने मुझे नहीं १६  
 चुना पर मैं ने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया कि तुम  
 जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम  
 मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे ।  
 इन बातों का आज्ञा मैं तुम्हें इसलिये देता हूं कि १७  
 तुम एक दूसरे में प्रेम रक्खो । यदि संसार तुम से बैर १८  
 रखता है तो तुम जानते हो कि उस ने तुम से पहिले  
 मुझ से भी बैर रक्खा । यदि तुम संसार के होत तो १९  
 संसार अपनों से प्रीति रखता पर इस कारण कि तुम  
 संसार के नहीं बरन मैं ने तुम्हें संसार में मे चुन लिया  
 है इसी लिये संसार तुम से बैर रखता है । जो बात २०  
 मैं ने तुम से कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा  
 नहीं होता वह स्मरण करो । यदि उन्होंने ने मुझे सताया  
 तो तुम्हें भी सताएंगे यदि उन्होंने ने मेरा बात मानी तो  
 तुम्हारी भी मानेंगे । पर यह सब कुछ वे मेरे नाम के २१  
 कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजेवाले को  
 नहीं जानते । यदि मैं न आता और उन से बातें न २२  
 करता तो वे पापी न ठहरते पर अब उन्हें उन के पाप  
 के लिये कोई बहाना नहीं । जो मुझ से बैर रखता है २३  
 वह मेरे पिता से भी बैर रखता है । यदि मैं उन में वे २४  
 काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी  
 नहीं ठहरते पर अब तो उन्होंने ने मुझे और मेरे पिता  
 दोनों को देखा और दोनों से बैर किया । और यह इस २५  
 लिये हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उन की व्यवस्था  
 में लिखा है कि उन्होंने ने मुझ से अकारण बैर किया ।  
 पर जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता २६  
 की ओर से भेजूंगा अर्थात् सत्य का आत्मा जो पिता की  
 ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा । और २७  
 तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरम्भ से मेरे साथ  
 रहे हो ॥

२ १६ ये बातें मैं ने तुम से इसलिये कहीं  
कि तुम ठोकर न खाओ । वे तुम्हें  
सभा में से निकाल देंगे वरन वह समय आता है कि  
जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमे-  
३ श्वर की सेवा करता हूँ । और यह वे इसलिये करेंगे  
४ कि उन्होंने ने न पिता को जाना न मुझे । पर ये बातें  
मैं ने इसलिये तुम से कहीं कि जब उन का समय आए  
तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैं ने तुम से कह दिया  
था और मैं ने आरम्भ में तुम से ये बातें इसलिये  
५ न कहीं कि मैं तुम्हारे साथ था । अब मैं अपने भेजने-  
वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझ से  
६ नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है । पर मैं ने जो ये बातें  
तुम से कही हैं इसलिये तुम्हारा मन शोक से भर  
७ गया । तीभी मैं तुम से सच कहता हूँ कि मेरा जाना  
तुम्हारे लिये अच्छा है क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह  
सहायक तुम्हारे पास न आएगा पर यदि मैं जाऊँगा  
८ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा । और वह आकर सत्कार  
को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर ९  
९ करेगा । पाप के विषय इसलिये कि वे मुझ पर  
१० विश्वास नहीं करते । धार्मिकता के विषय इसलिये कि  
मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे ।  
११ न्याय के विषय इसलिये कि संसार का सरदार देापी  
१२ ठहराया गया है । मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें  
१३ कहनी हैं पर अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते । पर जब  
वह अर्थात् सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारे सत्य  
का मार्ग बताएगा क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा  
पर जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आनेवाली बातें  
१४ तुम्हें बताएगा । वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी  
१५ बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा । जो कुछ पिता का है  
वह सब मेरा है इसलिये मैं ने कहा कि वह मेरी बातों  
१६ में से लेकर तुम्हें बताएगा । थोड़ी देर में तुम मुझे न  
१७ देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे । तब उस के  
कितने चेलों ने आपस में कहा यह क्या है जो वह हम से  
कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर  
थोड़ी देर में मुझे देखोगे और यह इसलिये कि मैं पिता  
१८ के पास जाता हूँ तो उन्होंने ने कहा यह थोड़ी देर जो  
वह कहता है क्या बात है हम नहीं जानते कि क्या  
१९ कहता है । यीशु ने यह जानकर कि वे मुझ से पूछना  
चाहते हैं उन से कहा क्या तुम आपस में मेरी इस बात  
के विषय पूछ पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे  
२० न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे । मैं  
(१) यां । काश्ल ।

तुम से सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप  
करोगे पर संसार आनन्द करेगा । तुम्हें शोक होगा  
पर तुम्हारा शोक आनन्द बन जाएगा । जब स्त्री जनने २१  
लगती है तो उस को शोक होता है क्योंकि उस की  
दुःख की घड़ी आ पहुँची पर जब वह बालक जन चुकी  
तो इस आनन्द से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ  
उस सकट का फिर स्मरण नहीं करती । और तुम्हें भी २२  
अब तो शोक है पर मैं तुम से फिर मिलूँगा और  
तुम्हारे मन में आनन्द होगा और तुम्हारा आनन्द  
कोई तुम से छीन न लेगा । उस दिन तुम मुझ से कुछ २३  
न पूछोगे । मैं तुम से सच सच कहता हूँ यदि पिता से  
कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा । अब तक २४  
तुम ने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा । मांगो तो पाओगे  
कि तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए ॥

मैं ने ये बातें तुम से दृष्टान्तों में कही हैं पर २५  
वह समय आता है कि मैं तुम से दृष्टान्तों में और नहीं  
कहूँगा पर खोलकर तुम्हें पिता के विषय बताऊँगा ।  
उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुम से यह २६  
नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिये पिता से बिनती करूँगा ।  
क्योंकि पिता तो आप ही तुम से प्रीति रखता है इस- २७  
लिये कि तुम ने मुझ से प्रीति रखी है और यह भी  
प्रतीति की है कि मैं पिता का और से निकल आया ।  
मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ फिर जगत को २८  
छोड़कर पिता के पास जाता हूँ । उस के चेलों ने कहा २९  
देख अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टान्त  
नहीं कहता । अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता ३०  
है और तुम्हें प्रयोजन नहीं कि कोई तुम से पूछे इस से  
हम प्रतीति करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है ।  
यह सुन यीशु ने उन से कहा क्या तुम अब प्रतीति ३१  
करते हो । देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुँची कि ३२  
तुम सब तित्तर बित्तर होकर अपना अपना मार्ग लोगे  
और मुझे अकेला छोड़ दोगे तीभी मैं अकेला नहीं  
क्योंकि पिता मेरे साथ है । मैं ने ये बातें तुम से इस ३३  
लिये कही हैं कि तुम्हें मुझ में शान्ति मिले । संसार  
में तुम्हें क्लेश होता है पर ढाढ़स बांधो मैं ने संसार  
को जीता है ॥

१७ यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी  
आंगुलियाँ आकाश की ओर  
उठाकर कहा हे पिता वह घड़ी आ पहुँची अपने पुत्र की  
महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे । क्योंकि तू ने २  
उस को सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तू ने  
(२) यूप । तुम्हें फिर देखूँगा ।

३ उस को दिया है उन सब को वह अनन्त जीवन दे । और  
 अनन्त जीवन यह है कि वे तुम्हें अद्वैत सच्चे परमेश्वर  
 ४ को और यीशु मसीह को जिसे तू ने भेजा है जानें । जो  
 काम तू ने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैं ने  
 ५ पृथिवी पर तेरी महिमा की है । और अब हे पिता तू  
 अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत  
 ६ के होने से पहिले मेरी तेरे साथ थी । मैं ने तेरा नाम  
 उन मनुष्यों पर प्रगट किया जिन्हें तू ने जगत में से मुझे  
 दिया । वे तेरे थे और तू ने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने  
 ७ ने तेरे वचन को मान लिया है । अब वे जान गए हैं  
 कि जो कुछ तू ने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है ।  
 ८ क्योंकि जो बातें तू ने मुझे पहुंचा दीं मैं ने उन्हें उन को  
 पहुंचा दिया और उन्होंने ने उन को ग्रहण किया और  
 सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ  
 ९ और प्रतीति कर ली कि तू ने मुझे भेजा । मैं उन  
 के लिये बिनती करता हूँ संसार के लिये बिनती नहीं  
 करता हूँ पर उन्हीं के लिये जिन्हें तू ने मुझे दिया है  
 १० क्योंकि वे तेरे हैं । और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है  
 और जो तेरा है वह मेरा है और इन से मेरी महिमा  
 ११ प्रगट है । मैं आगे के जगत में न रहूंगा पर ये जगत  
 में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ । हे पवित्र पिता  
 अपने उस नाम से जो तू ने मुझे दिया है उन  
 १२ की रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हों । जब  
 मैं उन के साथ था तो मैं ने तेरे उस नाम  
 से जो तू ने मुझे दिया है उन की रक्षा की मैं ने उन  
 की चौकसी की और बिनाश के पुत्र को छोड़ उन में  
 से कोई नाश न हुआ इसलिये कि पवित्र शास्त्र की  
 १३ बात पूरी हो । पर अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये  
 बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनन्द अपने में  
 १४ पूरा पाएँ । मैं ने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और  
 संसार ने उन से बैर किया क्योंकि जैसा मैं संसार का  
 १५ नहीं वैसे ही वे संसार के नहीं । मैं यह बिनती नहीं  
 करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले पर यह कि तू उन्हें  
 १६ उस दुष्ट से बचाए रख । जैसा मैं संसार का नहीं वैसे  
 १७ ही वे भी संसार के नहीं । सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र  
 १८ कर तेरा वचन सत्य है । जैसे तू ने मुझे जगत में भेजा  
 १९ वैसे ही मैं ने भी उन्हें जगत में भेजा । और उन के  
 लिये मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ कि वे भी सत्य  
 २० के द्वारा पवित्र किए जाएँ । मैं केवल इन्हीं के लिये  
 बिनती नहीं करता पर उन के लिये भी जो इन के  
 वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक  
 (१) या बुराई ।

हों । जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुम्हें हूँ २१  
 कि वे भी हम में ही इसलिये कि जगत प्रतीति  
 करे कि तू ने मुझे भेजा । और वह महिमा जो तू ने २२  
 मुझे दी मैं ने उन्हें दी है कि जैसे हम एक हैं वैसे  
 वे भी एक हों । मैं उन में और तू मुझ में कि वे सिद्ध २३  
 होकर एक हो जाएँ और जगत जाने कि तू ने मुझे  
 भेजा और जैसा तू ने मुझ से प्रेम रक्खा वैसा ही उन से  
 प्रेम रक्खा । हे पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तू ने मुझे २४  
 दिया है जहां मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हों कि वे मेरी  
 उस महिमा को देखें जो तू ने मुझे दी है क्योंकि तू ने  
 जगत की उत्पत्ति से पहिले मुझ से प्रेम रक्खा । हे २५  
 धार्मिक पिता संसार ने तुम्हें नहीं जाना पर मैं ने तुम्हें  
 जाना और इन्हीं ने भी जाना कि तू ने मुझे भेजा ।  
 और मैं ने तेरा नाम उन को जताया और जताता रहूंगा २६  
 कि जो प्रेम तुम्हें मुझ से था वह उन में रहे और  
 मैं उन में रहूँ ॥

## १८ योशु ये बातें कह कर अपने चेलों

के साथ किद्रोन के नाले के  
 पार गया वहां एक बारी थी जिस में वह और उस के  
 चले गए । उस का पकड़वानेवाला यहूदा भी वह जगह २  
 जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया  
 करता था । तब यहूदा पलटन को और महायाजकों ३  
 और फरोसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और  
 मशालों और हथियारों को लिये हुए वहां आया । सो ४  
 यीशु उन सब बातों को जो उस पर आनेवाली थीं  
 जानकर निकला और उन से कहने लगा किसे दूँदते  
 हो । उन्होंने ने उस को उत्तर दिया यीशु नासरी को । ५  
 यीशु ने उन से कहा मैं हूँ । और उस का पकड़वाने-  
 वाला यहूदा भी उन के साथ खड़ा था । उस के यह ६  
 कहने ही कि मैं हूँ वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े ।  
 तब उस ने फिर उन से पूछा तुम किस का दूँदते हो । ७  
 वे बोले यीशु नासरी को । यीशु ने उत्तर दिया मैं तो ८  
 तुम से कह चुका कि मैं ही हूँ सो यदि मुझे दूँदते हो  
 तो इन्हें जाने दो । यह इस लिये हुआ कि वह वचन ९  
 पूरा हो जो उस ने कहा था कि जिन्हें तू ने मुझे दिया  
 उन में से मैं ने एक को भी न खोया । शमौन पतरस १०  
 ने तलवार जो उस के पास थी लीची और महायाजक  
 के दास पर चलाकर उस का दाहिना कान उड़ा दिया  
 उस दास का नाम मलखुस था । तब यीशु ने पतरस ११  
 से कहा अपनी तलवार काठी में रख । जो कटोरा पिता  
 ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊँ ॥



- १२ तब सिपाहियों और उन के सूबेदार और यहूदियों  
 १३ के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया । और पहिले  
 उसे हजा के पास ले गए क्योंकि वह उस बरस के महा-  
 १४ याजक काइफा का समुर था । यह वही काइफा था  
 जिस ने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के  
 लिये एक पुरुष का मरना अच्छा है ॥
- १५ शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे  
 हो लिए । यह चेला महायाजक का जान पहचान था  
 १६ और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया । परन्तु  
 पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा सो वह दूसरा चेला जो  
 महायाजक का जान पहचान था बाहर निकला और  
 १७ द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया । उस  
 दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा क्या तू भी  
 इस मनुष्य के चेलों में से है । उस ने कहा मैं नहीं हूँ ।  
 १८ दास और प्यादे जाड़े के कारण केयले धधकाकर खड़े  
 ताप रहे थे और पतरस भी उन के साथ खड़ा ताप रहा था ॥
- १९ तब महायाजक ने यीशु से उस के चेलों के  
 २० विषय और उस के उपदेश के विषय पूछा । यीशु ने  
 उस को उत्तर दिया कि मैं ने जगत से खोलकर  
 बातें कीं मैं ने सभाओं और मन्दिर में जहां सब  
 यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और  
 २१ गुप्त में कुछ नहीं कहा । तू मुझ से क्यों पूछता है  
 मुननेवालों से पूछ कि मैं ने उन से क्या कहा । देख  
 २२ वे जानते हैं कि मैं ने क्या क्या कहा । जब उस ने यह  
 कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को  
 थप्पड़ मारकर कहा क्या तू महायाजक को यों उत्तर  
 २३ देता है । यीशु ने उसे उत्तर दिया यदि मैं ने बुरा कहा  
 तो उस बुराई पर गवाही दे पर यदि भला कहा तो मुझे  
 २४ क्यों मारता है । हजा ने उसे बंधे हुए काइफा महाया-  
 जक के पास भेज दिया ॥
- २५ शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था । तब  
 उन्होंने ने उस से कहा क्या तू भी उस के चेलों में से है ।  
 २६ उस ने मुकर के कहा मैं नहीं हूँ । महायाजक के दासों  
 में से एक जो उस के कुटुम्ब में से था जिस का कान  
 पतरस ने काट डाला था बोला क्या मैं ने तुम्हें उस के  
 २७ साथ बारी में न देखा था । पतरस फिर मुकर गया  
 और तुरन्त मुर्ग ने बांग दी ॥
- २८ और वे यीशु को काइफा के पास से किले को  
 ले गए और भोर का समय था पर वे आप किले के  
 भीतर न गए कि अशुद्ध न हों पर फसह खा सकें ।  
 २९ सो पीलातुस उन के पास बाहर निकल आया और  
 कहा तुम इस मनुष्य पर किस बात की नातिश करते

हो । उन्होंने ने उस को उत्तर दिया कि यदि वह कुकर्मों ३०  
 न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते । पीलातुस ने ३१  
 उन से कहा तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के  
 अनुसार उस का न्याय करो । यहूदियों ने उस से कहा  
 हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें । यह इस- ३२  
 लिये हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उस ने यह  
 पता देते हुए कही थी कि उस का मरना कैसा होगा ॥

तब पीलातुस फिर किले के भीतर गया और ३३  
 यीशु को बुलाकर उस से पूछा क्या तू यहूदियों का ३४  
 राजा है । यीशु ने उत्तर दिया क्या तू यह बात  
 अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय ३५  
 तुझ से कही । पीलातुस ने उत्तर दिया क्या मैं यहूदी ३५  
 हूँ । तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हाथ  
 सौंपा तू ने क्या किया । यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा ३६  
 राज्य इस जगत का नहीं यदि मेरा राज्य इस जगत का  
 होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ ३६  
 सौंपा न जाता । पर अब मेरा राज्य यहां का नहीं ।  
 पीलातुस ने उस से कहा तो क्या तू राजा है । यीशु ३७  
 ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ मैं ने  
 इसलिये जन्म लिया और इसलिये जगत में आया  
 हूँ कि सत्य पर सान्नी दूं जो कोई सत्य का है वह  
 मेरा शब्द सुनता है । पीलातुस ने उस से कहा सत्य ३८  
 क्या है ॥

और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास  
 निकल गया और उन से कहा मैं तो उस में कुछ दोष ३९  
 नहीं पाता । पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में ३९  
 तुम्हारे लिये एक जन को छोड़ दूं सो क्या तुम चाहते हो  
 कि मैं तुम्हारे लिये यहूदियों के राजा को छोड़ दूं ।  
 तब उन्होंने ने फिर चिल्लाकर कहा इसे नहीं पर बरअब्बा ४०  
 को और बरअब्बा डाकू था ॥

१६. इस पर पीलातुस ने यीशु को लेकर  
 कोड़े लगवाए । और सिपाहियों २  
 ने कांटों का मुकुट गूँथकर उस के सिर पर रक्वा और  
 उसे बैजनी वस्त्र पहिनाया । और उस के पास आ ३  
 आकर कहने लगे हे यहूदियों के राजा प्रणाम और  
 उसे थप्पड़ भी मारे । तब पीलातुस ने फिर बाहर ४  
 निकलकर लोगों से कहा देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर  
 बाहर लाता हूँ इसलिये कि तुम जानो कि मैं उस में ५  
 कुछ दोष नहीं पाता । सो यीशु कांटों का मुकुट और  
 बैजनी वस्त्र पहिने हुए बाहर निकला और पीलातुस  
 ने उन से कहा देखो यह मनुष्य । जब महायाजकों और ६

प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा कि क्रूस पर चढ़ा क्रूस पर । पीलातुस ने उन से कहा तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ क्योंकि मैं उस में दोष नहीं पाता ।  
 ७ यहूदियों ने उस को उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है क्योंकि उस ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया । जब पीलातुस ने यह बात सुनी तो और भी ९ डर गया । और फिर क्रिले के भीतर गया और यीशु से कहा तू कहां का है पर यीशु ने उसे कुछ उत्तर न १० दिया । पीलातुस ने उस से कहा मुझ से क्यों नहीं बोलता क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का मुझे अधिकार है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी ११ मुझे अधिकार है । यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता इसलिये जिस ने मुझे तेरे हाथ पकड़- १२ वाया है उस का पाप अधिक है । इस से पीलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा पर यहूदियों ने चिल्ला चिल्लाकर कहा यदि तू इस को छोड़ दे तो तेरी भक्ति कैसर की और नहीं जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह १३ कैसर का सामना करता है । ये बातें सुनकर पीलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में गन्धता कहलाता है न्याय-आसन पर बैठा । १४ यह फ़सल की तैयारी का दिन और छठे घंटे के लगभग था । तब उस ने यहूदियों से कहा देखो यही हैं १५ तुम्हारा राजा । पर वे चिल्लाए कि उस का काम तमाम कर उसे क्रूस पर चढ़ा । पीलातुस ने उन से कहा क्या में तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊँ । महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा १६ नहीं । तब उस ने उसे उन के हाथ सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए ॥  
 १७ तब वे यीशु को ले गए । और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की १८ जगह कहलाती है और इब्रानी में गुलगुता । वहां उन्होंने ने उसे और उस के साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया एक को इधर और एक को उधर और बीच में १९ यीशु को । और पीलातुस ने दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उस में यह लिखा हुआ था यीशु २० नासरी यहूदियों का राजा । यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया नगर के पास था और पत्र इब्रानी और २१ लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था । तब यहूदियों के महायाजकों ने पीलातुस से कहा यहूदियों का राजा

मत लिख पर यह कि उस ने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ । पीलातुस ने उत्तर दिया कि मैं ने जो लिख २२ दिया सो लिख दिया ॥

जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो २३ उस के कपड़े लेकर चार भाग किये हर सिपाही के लिये एक भाग और कुरता भी लिया पर कुरता बिन सीअन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था । इसलिये २४ उन्होंने ने आपस में कहा हम इस को न फाड़ें पर उस पर चिट्ठी डालें कि वह किस का होगा । यह इस-लिये हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने ने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली । सो सिपाहियों ने यही किया । पर यीशु २५ के क्रूस के पास उस की माता और उस की माता की पहिले मरयम को पास की पत्नी और मरयम मगदलीनी खड़ी थी । यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिस २६ से वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा यह तेरी माता है और उसी समय से वह चेला २७ उसे अपने घर ले गया ॥

इस के पीछे यीशु ने यह जानकर कि अब सब २८ कुछ हो चुका इसलिये कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा मैं पियासा हूँ । वहां सिरके से भरा हुआ एक २९ बर्तन धरा था सो उन्होंने ने सिरके में भिगीए हुए इस्पंज को झूफे पर रखकर उस के मुँह से लगाया । जब ३० यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर भुकाकर प्राण त्याग दिया ॥

इसलिये कि वह तैयारी का दिन था यहूदियों ३१ ने पीलातुस से थिनती की कि उन की टांगें तोड़ दी जाएँ और वे उतारे जाएँ कि विश्राम के दिन को क्रूसों पर न रहें क्योंकि वह विश्राम का दिन बड़ा दिन था । सो सिपाहियों ने आकर पहिले की टांगें तोड़ीं तब दूसरे ३२ की भी जो उस के साथ क्रूसों पर चढ़ाये गए थे । पर ३३ जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उस की टांगें न तोड़ीं । पर सिपाहियों में से एक ३४ ने बरछे से उस का पंजर बेधा और तुरन्त लोहू और पानी निकला । जिस ने यह देखा उसी ने गवाही दी ३५ है और उस की गवाही सच्ची है और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो । ये बातें इस ३६ लिये हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उस की कोई हड्डी तोड़ीं न जाएगी । फिर एक जगह और यह ३७ लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा उस पर दृष्टि करेंगे ॥

(१) या महिला ।

३८ इन बातों के पीछे अरमतियाह के यूसुफ ने जो यीशु का चेला था पर यहूदियों के डर से इस बात को छिपाये रखता था पीलातुस से बिनती की कि मैं यीशु की लोथ को ले जाऊँ और पीलातुस ने उस की ३९ सुनी और वह आकर उस की लोथ ले गया । निकु-देमुस भी जो पहिले यीशु के पास रात को गया था पचास सेर के अटकल मिला हुआ गन्धरस और ४० एलवा लेके आया । तब उन्होंने ने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार ४१ उसे सुगन्ध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा । उस जगह पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई क्रबर थी जिस में कभी कोई ४२ न रक्खा गया था । सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने ने यीशु को वहाँ रक्खा क्योंकि वह क्रबर निकट थी ॥

## २०. अठवारे के पहिले दिन मरयम मगदलीनी भोर को

अंधेरा रहते ही क्रबर पर आई और पत्थर को क्रबर २ से हटा हुआ देखा । तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चले के पास जिस से यीशु प्रेम रखता था आकर कहा वे प्रभु को क्रबर में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां ३ रख दिया है । तब पतरस और वह दूसरा चेला निक- ४ लकर क्रबर की ओर चले । और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे कि दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर क्रबर ५ पर पहिले पहुँचा । और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी ६ वह भीतर न गया । तब शमौन पतरस उस के पीछे पीछे पहुँचा और क्रबर के भीतर गया और कपड़े पड़े ७ देखे । और वह अंगोछा जो उस के सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं पर अलग एक जगह ८ लपेटा हुआ देखा । तब दूसरा चेला भी जो क्रबर पर पहिले पहुँचा था भीतर गया और देखकर विश्वास ९ किया । वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मेरे हुआ में से जी उठना होगा । १० सो ये चले अपने घर लौट गए ॥

११ पर मरयम रोती हुई क्रबर के पास बाहर खड़ी १२ रही और रोते रोते क्रबर की ओर झुककर, दो स्वर्ग-द्वारों को उजले कपड़े पहिने हुए एक का सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु की लोथ पड़ी थी । १३ उन्होंने ने उस से कहा हे नारी तू क्यों रोती है । उस ने उन से कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और नहीं जानती १४ कि उसे कहां रक्खा है । यह कह कर वह पीछे फिरी

और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है । यीशु ने उस से कहा हे नारी तू क्यों रोती है किस १५ को ढूँढ़ती है । उस ने माली समझ कर उस से कहा हे महाराज यदि तू ने उसे उठा लिया है तो मुझ से कह कि उसे कहां रक्खा है और मैं उसे ले जाऊँगी । यीशु ने १६ उस से कहा मरयम । उस ने पीछे फिर कर उस से इब्रानी में कहा रब्बूनी अर्थात् हे गुरु । यीशु ने उस से कहा १७ मुझे मत खूँ क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया पर मेरे भाइयों के पास जाकर उन से कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ । मरयम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैं १८ ने प्रभु को देखा और उस ने मुझ से ये बातें कहीं ॥

उसी दिन जो अठवारे का पहिला दिन था सांझ १९ होते हुए जब वहाँ के द्वार जहाँ चले थे यहूदियों के डर के मारे बन्द थे यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उन से कहा तुम्हें शान्ति मिले । और यह कह कर उस २० ने अपना हाथ और अपना पंजर उन को दिखाए । तब चले प्रभु को देखकर आनन्दित हुए । यीशु ने फिर उन से कहा तुम्हें शान्ति मिले । जैसे पिता ने मुझे भेजा २१ है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ । यह कहकर उस ने २२ उन पर फूँका और उन से कहा पवित्र आत्मा लो । जिन के पाप तुम क्षमा करो वे उन के लिये क्षमा किए २३ गए हैं जिन के तुम रक्वों वे रक्वें हुए हैं ॥

पर बारहों में से एक जन अर्थात् तोमा जो २४ दिदुमुस कहलाता है जब यीशु आया तो उन के साथ न था । सो और चले उस से कहने लगे हम ने २५ प्रभु को देखा है । उस ने उन से कहा जब तक मैं उस के हाथों में कीलों के छेद न देख लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उँगली न डाल लूँ और उस के पंजर में अपना हाथ न डाल लूँ तो मैं प्रतीति न करूँगा ॥

आठ दिन के पीछे उस के चले फिर घर के भीतर २६ थे और तोमा उन के साथ था और द्वार बन्द थे तो यीशु आया और उस ने बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शान्ति मिले । तब उस ने तोमा से कहा अपनी उँगली यहाँ २७ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो । यह सुन तोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर । २८ यीशु ने उस से कहा तू ने तो मुझे देखकर विश्वास २९ किया है धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया ॥

३० यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने  
३१ दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए । पर ये इस-  
लिये लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही  
परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उस के  
नाम से जीवन पाओ ॥

२१. इन बातों के पीछे यीशु ने फिर  
अपने आप को चेलों को  
तिबिरियास की भील के किनारे दिखाया और  
२ इस रीति से दिखाया । शमौन पतरस और तोमा  
जो दिदुभुस कहलाता है और गलील के काना नगर  
का नतनएल और ज़बदी के पुत्र और उस के चेलों  
३ में से दो और जन इकट्ठे थे । शमौन पतरस ने  
उन से कहा मैं मछली पकड़ने का जाता हूँ । उन्हों  
ने उस से कहा हम भी तैर साथ चलते हैं सो वे निकल  
४ कर नाव पर चढ़े पर उस रात कुछ नहीं पकड़ा । भोर  
होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ तीभी चेलों ने न  
५ पहचाना कि यह यीशु है । तब यीशु ने उन से कहा हे  
बालको क्या तुम्हारे पास कुछ खाने का है उन्हों ने  
६ उत्तर दिया कि नहीं । उस ने उन से कहा नाव की  
दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे सो उन्हों ने डाला  
और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच  
७ न सके । इसलिये उस चले ने जिस से यीशु प्रेम  
रखता था पतरस से कहा यह तौ प्रभु है । शमौन पतरस  
ने यह सुनकर एक प्रभु के कमर में अग्रगत्ता कस लिया  
८ क्योंकि वह नंगा था और भील में कूद पड़ा । पर और  
चले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते  
हुए आए क्योंकि वे किनारे से दूर नहीं कोई दो सौ हाथ  
९ पर थे । जब किनारे पर उतरे तो उन्हों ने काएले की  
आग और उस पर मछली रक्खी हुई और रोटी देखी ।  
१० यीशु ने उन से कहा जो मछलिया तुम ने अभी पकड़ी  
११ हैं उन में से कुछ लाओ । शमौन पतरस ने डोंगी पर  
चढ़कर एक सौ तर्पन बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल  
किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने से भी  
१२ जाल न फटा । यीशु ने उन से कहा कि आओ भोजन  
करो और चेलों में से किसी का हियाव न हुआ कि उस  
से पूछे कि तू कौन है क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु  
१३ ही है । यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और  
१४ वैसे ही मछली भी । यह तीसरी बार है कि यीशु मरे  
हुओं में से जी उठने के पीछे चेलों को दिखाई दिया ॥

भोजन करने के पीछे यीशु ने शमौन पतरस से १५  
कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र क्या तू मुझ से इन से बढ़-  
कर प्रेम रखता है । उस ने उस से कहा हां प्रभु तू जानता  
है कि मैं तुझ से प्रीति रखता हूँ । उस ने उस से कहा १६  
मेरे मेमनों का चरा । उस ने फिर दूसरी बार उस से  
कहा । हे शमौन यूहन्ना के पुत्र क्या तू मुझ से प्रेम  
रखता है । उस ने उस से कहा हां प्रभु तू जानता है  
कि मैं तुझ से प्रीति रखता हूँ । उस ने उस से कहा  
मेरी भेड़ों की रखवाली कर । उस ने तीसरी बार उस १७  
से कहा हे शमौन यूहन्ना के पुत्र क्या तू मुझ से प्रीति  
रखता है । पतरस उदास हुआ कि उस ने उस से तीसरी  
बार कहा क्या तू मुझ से प्रीति रखता है और उस से  
कहा हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है तू जानता  
है कि मैं तुझ से प्रीति रखता हूँ । यीशु ने उस से  
कहा मेरी भेड़ों का चरा । मैं तुझ से सच सच कहता १८  
हूँ जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां  
चाहता था वहां फिरता था पर जब तू बड़ा होगा तो  
अपने हाथ लम्बे करेगा और दूसरा तैरा कमर बांधकर  
जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा । उस ने इन १९  
बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर  
का माहमा करेगा और यह कहकर उस से कहा मेरे पीछे  
हां ले । पतरस ने फिरकर उस चले का पीछे से आते २०  
देखा जिस से यीशु प्रेम रखता था और जिस ने बियारी  
के समय उस की छाती की ओर झुक कर पूछा था हे  
प्रभु तैरा पकड़वानेवाला कौन है । उस देखकर पतरस २१  
ने यीशु से कहा हे प्रभु इस का क्या हाल होगा ।  
यीशु ने उस से कहा यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे २२  
आन तक ठहरा रहे तो तुझे क्या । तू मेरे पीछे हो ले ।  
इसलिये भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चला न २३  
मरेगा तीभी यीशु ने उस से यह नहीं कहा कि यह न  
मरेगा पर यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक  
ठहरा रहे तो तुझे क्या ॥

यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता २४  
है और जिस ने इन बातों को लिखा और हम जानते  
हैं कि उस की गवाही सच्ची है ॥

और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए । यदि २५  
वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि  
पुस्तकें जो लिखी जातीं जगत में भी न समातीं ॥

## प्रेरितों के कामों का बखान ।

१. हे थियुफिलस मैं ने पहिला बखान उन सब  
 २ बातों के विषय रचा जो यीशु ने आरम्भ  
 ३ किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक कि वह  
 ४ उन प्रेरितों को जिन्हें उस ने चुना था पवित्र आत्मा के  
 ५ द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया गया । और उस ने दुख  
 ६ उठाने के पीछे बहुतेरे पक्के प्रमाणों से अपने आप को  
 ७ उन्हें जीवता दिखाया कि चालीस दिन तक वह उन्हें  
 ८ दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता  
 ९ रहा । और उन से मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम  
 १० को न छोड़ो परन्तु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की  
 ११ बाट जाँहते रहो जिस की चर्चा तुम मुझ से सुन चुके  
 १२ हो । क्योंकि यहूजा ने तो पानी से बपतिसमा दिया पर  
 १३ थोड़े दिनों के पीछे तुम पवित्रात्मा से बपतिसमा  
 १४ पाओगे ॥
- १५ सो उन्हों ने इकट्ठे होकर उस से पूछा कि हे प्रभु  
 १६ क्या तू इसी समय इस्राईल को राज्य फेर देता है ।  
 १७ उस ने उन से कहा उन समयों या कालों को जानना  
 १८ जिन को पिता ने अपने ही अधिकार में रक्खा है  
 १९ तुम्हारा काम नहीं । पर जब पवित्र आत्मा तुम पर  
 २० आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और  
 २१ सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथिवी के छोर  
 २२ तक भरे गवाह होंगे । यह कहकर वह उन के देखते  
 २३ देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उन की  
 २४ आंखों से छिपा लिया । और उस के जाते हुए जब वे  
 २५ आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष उजला  
 २६ वस्त्र पहिने हुए उन के पास आ खड़े हुए । और कहने  
 २७ लगे हे गलीली पुरुषो तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख  
 २८ रहे हो । यही यीशु जो तुम्हारे पास में स्वर्ग पर उठा  
 २९ लिया गया है जिस रीति से तुम ने उसे स्वर्ग को जाते  
 ३० देखा उसी रीति से फिर आएगा ॥
- ३१ तब वे जैतून नाम पहाड़ से जा यरूशलेम के  
 ३२ निकट एक विश्राम के दिन की बाट भर दूर है यरूश-

(१) या मं ।

लेम को लौटे । और जब वहां पहुँचे तो वे उस अटारी १३  
 पर गये जहां पतरस और यहूजा और याकूब और  
 अन्द्रियास और किलिप्पुस और तोमा और बरतुलमाई  
 और मती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन  
 ज़ेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे । ये सब १४  
 कई स्त्रियों और यीशु की माता मरयम और उस के  
 भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे ॥

और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों के बीच में जो १५  
 एक सौ बीस जन के अटकल इकट्ठे थे खड़ा होकर  
 कहने लगा, हे भाइयो अवश्य था कि पवित्र शास्त्र की १६  
 वह बात पूरी हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से  
 यहूदा के विषय जो यीशु के पकड़नेवालों का अगुवा  
 था पहिले से कही थी । वह तो हम में गिना गया और १७  
 इस सेवकाई में भागी हुआ । उस ने अधर्म का कमाई से १८  
 एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उस  
 का पेट फट गया और उस की सब अन्तड़ियां निकल  
 पड़ीं । और इस को यरूशलेम के सब रहनेवाले जान गए १९  
 यहां तक कि उस खेत का नाम उन की भाषा में इक-  
 लदमा अर्थात् लोहू का खेत पड़ गया । भजन संहिता २०  
 में लिखा है कि उस का घर उजड़ जाए और उस में  
 कोई न बसे और उस का पद कोई दूसरा ले । इसलिये २१  
 जितने दिन प्रभु यीशु यहूजा के बपतिसमा से लेकर  
 उस दिन तक कि वह हमारे पास से उठा लिया गया  
 हमारे बीच में आता जाता रहा चाहिए कि जो मनुष्य  
 हमारे साथ बराबर रहे, उन में से एक जन हमारे साथ २२  
 उस के जी उठने का गवाह हो जाए । तब उन्हीं ने दो २३  
 को खड़ा किया एक यूसुफ को जो बर-सवा कहलाता  
 है जिस का उपनाम यूसुस है और मत्तियाह के ।  
 और यह कह कर प्रार्थना का कि हे प्रभु तू जो सब के २४  
 मन जानता है यह बता कि इन दोनों में से तू ने किस  
 को चुना है । कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई की २५  
 जगह ले जिसे यहूदा छोड़ कर अपनी जगह गया ।

(२) या भाई ।

२६ तब उन्होंने ने चिट्टियां डालीं और चिट्टी मत्तिय्याह के नाम पर निकलीं सो वह उन ग्यारह प्रेरितों के साथ गिना गया ॥

२. जब पन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे । और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी का सा शब्द हुआ और उस से सारा घर जहां वे बैठे थे गूँज गया । और उन्हें आग की सी जीभें अलग अलग होती हुई दिखाई दीं और उन में से हर एक पर आ ठहरा । और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी आन आन बोलियां बोलने लगे ॥
- ५ और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से ६ भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे । जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और वे घबरा गए क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं । और वे सब चकित और अचम्भित होकर कहने लगे देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली ७ नहीं । तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी ८ जन्म भूमि की भाषा सुनता है । हम जो पारथी और मेदी और एलामी लोग और मिस्रपुतामिया और यहूदिया और कपटूकिया और पुन्तुस और आसिया १० और फ्रुगिया और पमफूलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेने के आस पास है इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी क्या यहूदी क्या यहूदी मत ११ धारण करनेवाले, क्रेती और अरबी भी हैं पर अपनी अपनी भाषा में उन से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की १२ चर्चा सुनते हैं । सो वे सब चकित हुए और घबराकर १३ एक दूसरे से कहने लगे यह क्या बात है । पर औरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा से छुकाछुक हुए हैं ॥
- १४ तब पतरस उन ग्यारह के साथ खड़ा हा ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहनेवालो यह जानो और कान लगाकर मेरी १५ बातें सुनो । ये तो मतवाले नहीं जैसा तुम समझ रहे १६ हो क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है । पर यह १७ वह बात है जो योएल नबी के द्वारा कही गई । कि परमेश्वर कहता है पिछले दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उडेलूंगा<sup>(१)</sup> और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगीं और तुम्हारे जवान १८ दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिए स्वप्न देखेंगे । वरन मैं

अपने दासों और अपनी दासियों पर उन दिनों में अपना आत्मा उडेलूंगा<sup>(२)</sup> और वे नबूवत करेंगे । और मैं १९ ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात् लोहू और आग और धुँए का बादल दिखाऊंगा । प्रभु के बड़े और प्रसिद्ध दिन के आने से २० पहिले सूरज अंधेरा और चांद लोहू हो जाएगा । और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा । २१ हे इस्राईलियो ये बातें सुनो । यीशु नासरी एक मनुष्य था २२ जिस का प्रमाण परमेश्वर ने सामर्थ्य के कामों और अद्भुत कामों और चिन्हों से दिया जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उस के द्वारा दिखाए जैसा तुम आप ही जानते हो । उसी के जब वह परमेश्वर की ठहराई २३ हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तुम ने अधर्मियों के हाथ के द्वारा क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला । उसी के परमेश्वर ने मृत्यु के २४ बंधनों से छुड़ाकर जिलाया क्योंकि अनहोना था कि वह उस के बश में रहे । क्योंकि दाऊद उस के विषय २५ कहता है मैं प्रभु के सदा अपने सामने देखता रहा कि वह मेरी दहिनी ओर है कि मैं डिग न जाऊ । इस कारण मेरा मन आनन्द हुआ और मेरी जीभ २६ भगन हुई वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा । क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न २७ छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा । तू २८ ने मुझे जीवन का मार्ग बताया है तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनन्द से भर देगा । हे भाइयो मैं उस २९ कुलपति दाऊद के विषय तुम से खोलकर कहता हूँ कि वह तो मरा और गाड़ा भी गया और उस की कब्र आज तक हमारे यहां है । सो नबी होकर और ३० यह जानकर कि परमेश्वर ने भुक्त से किरिया खाई है कि मैं तेरे बंश में से एक के तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा । उस ने होनहार को पहिले से देखकर मसीह ३१ के जी उठने के विषय कह दिया कि न उस का प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उस की देह सड़ी । इसी यीशु के परमेश्वर ने जिलाया और इस बात के ३२ हम सब गवाह हैं । सो परमेश्वर के दहिने हाथ ऊंचा ३३ पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा जिस की प्रतिज्ञा की गई थी पाकर उस ने यह जो तुम देखते और सुनते हो उडेल दिया है । क्योंकि दाऊद ३४ तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा पर वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दहिने बैठ, जब तक मैं ३५

(१) या बहाऊंगा ।

(२) या बहाऊंगा । (३) यू० की पीड़ाओं । (४) या बहा ।

३६ तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूँ, सो इस्त्रा-  
ईल का सारा घराना सच जाने कि परमेश्वर ने उसी  
यीशु को जिसे तुम ने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु और मसीह  
भी ठहराया ॥

३७ तब सुननेवालों के मन छिद गए और वे पतरस  
और शेष प्रेरितों से पूछने लगे हे भाइयो हम

३८ क्या करें। पतरस ने उन से कहा मन फिराओ  
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के  
लिये यीशु मसीह के नाम से बपतिसमा ले तो तुम

३९ पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा  
तुम और तुम्हारे सन्तानों और सब दूर दूर के लोगों  
के लिये है जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास

४० बुलाएगा। उस ने बहुत और बातों से भी गवाही दे  
देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से

४१ बचाओ। सो जिन्होंने उन की बात मानी उन्होंने  
बपतिसमा लिया और उस दिन कोई तीन हजार मनुष्य

४२ उन में मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और  
संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लगे  
रहते थे ॥

४३ और सब लोगों पर भय छा गया और बहुतेरे  
अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा दिखाए जाते

४४ थे। और सब विश्वास करनेवाले इकट्ठे रहते थे और

४५ उन की सब वस्तुएं सामे की थीं। और वे अपनी  
अपनी सम्पत्ति और सामान बेचकर जैसी जिस को

४६ जरूरत होती थी सब में बांट लेते थे। और वे हर  
दिन मन्दिर में एक मन होकर इकट्ठे होते थे और घर  
घर रोटी तोड़ते हुए आनन्द और मन की सीधई से

४७ भोजन करते थे। और परमेश्वर की स्तुति करते थे  
और सब लोग उन से प्रसन्न थे और प्रभु उद्धार पाने-  
वालों को हर दिन उन में मिलाता था ॥

### ३. पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना

के समय मन्दिर में जा

२ रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे

जिस को वे हर दिन मन्दिर के उस द्वार पर जो सुन्दर  
कहलाता है बैठा देते थे कि वह मन्दिर में जानेवालों

३ से भीख मांगे। जब उस ने पतरस और यूहन्ना को

४ मन्दिर में जाते देखा तो उन से भीख मांगी। पतरस

ने यूहन्ना के साथ उस की ओर ध्यान से देखकर कहा

५ हमारी ओर देख। सो वह उन से कुछ पाने की आशा

रखते हुए उन की ओर ताकने लगा। तब पतरस ने ६

कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं पर जो

मेरे पास है वह तुम्हें देता हूँ यीशु मसीह नासरी के

नाम से चल फिर। और उस ने उस का दहिना हाथ ७

पकड़ के उसे उठाया और तुरन्त उस के पांवों और

टखनों में बल आ गया। और वह उछलकर खड़ा हो ८

गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता

और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उन के साथ

मन्दिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और ९

परमेश्वर की स्तुति करते देखकर, उस को पहचान लिया १०

कि यह वही है जो मन्दिर के सुन्दर फाटक पर बैठ कर

भीख मांगा करता था और जो उस के साथ हुआ था

उस से वे बहुत अचम्भित और चकित हुए ॥

जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था ११

तो सब लोग बहुत अचम्भा करते हुए उस आंसरे में

जो सुलैमान का कहलाता है उन के पास दौड़े आये।

यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा हे इस्राईलियो १२

तुम इस मनुष्य पर क्यों अचम्भा करते हो और हमारी

ओर क्यों ऐंसा ताक रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी

सामर्थ या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया।

इब्राहीम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर हमारे १३

बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा

की जिसे तुम ने पकड़वा दिया और जब पीलातुस ने

उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुम उस के आगे

उस से मुकर गए। पर तुम उस पवित्र और धर्मी से १४

मुकर गए और चाहा कि एक स्तूनी तुम्हारे लिये छोड़

दिया जाए। और तुम ने जीवन के कर्त्ता को मार डाला १५

और परमेश्वर ने उसे मरे हुआओं में में जिलाया और

इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस १६

विश्वास के द्वारा जो उस के नाम पर है इस मनुष्य

को जिसे तुम देखते और जानते हो सामर्थ दी है और

उसी विश्वास ने जो उस के द्वारा है इस को तुम

सब के सामने बिलकुल भला चंगा कर दिया है।

और अब हे भाइयो मैं जानता हूँ कि यह काम तुम ने १७

अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी

किया। पर जिन बातों को परमेश्वर ने सब नवियों के १८

मुख से पहिले बताया था कि मसीह दुख उठाएगा उन्हें

उस ने इस रीति से पूरी किया। इसलिये मन फिराओ और १९

लौटो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं जिस से आत्मिक

विश्रान्ति का समय प्रभु की ओर से आए, और वह २०

उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिये पहिले से

ठहराया गया है। जिसे चाहिए कि स्वर्ग में उस समय २१

(१) यू० पी० ॥

(२) मत्ती २६ : २६, और इस पुस्तक के २० अ० ७ पद को देखो ॥

तक रहे' कि वह सब बातों को सुधारे जिस की चरचा परमेश्वर ने अपने पवित्र नवियों के मुख से की है जो २२ जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। जैसा कि मूसा ने कहा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिये मुझ सा एक नबी उठाएगा जो कुछ वह तुम से कहे उस की २३ सुनना। पर हर मनुष्य जो उस नबी की न सुने लोगों में २४ से नाश किया जाएगा। और समवील से लेकर पिछ्लों तक जितने नवियों ने बातें कहीं उन सब ने इन दिनों २५ का सन्देश दिया है। तुम नवियों के सन्तान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बापदादों से बांधी जब उस ने इब्राहीम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथिवी के सारे घराने आशिष पाएंगे। २६ परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहिले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उस की बुराइयों से फेरकर आशिष दे ॥

#### ४. जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो

याजक और मन्दिर के सरदार २ और सद्की उन पर चढ़ आए। क्योंकि वे बहुत रिसियाए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मंत्र हुआँ के जी उठने का प्रचार ३ करते थे। और उन्होंने ने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक ४ हवालात में रक्खा क्योंकि सांभ हो गई थी। पर वचन के सुननेवालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उन की गिनती पांच हजार पुरुषों के अटकल हो गई ॥ ५ दूसरे दिन उन के सरदार और पुरनिये और ६ शास्त्री, और महायाजक हज़ा और काइफा और यूहन्ना और सिकन्दर और जितने महायाजक के घराने के थे ७ सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुम ने यह काम किस सामर्थ्य ८ से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उन से कहा हे लोगों के ९ सरदारों और पुरनियो, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है यदि आज हम से पूछ पाछ की १० जाती है कि वह क्योंकर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इसाईली लोग जानें कि यीशु मसीह नामसी के नाम से जिसे तुम ने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुआँ में से जिलाया यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला ११ चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजों ने

तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और किसी दूसरे से उद्धार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे १२ मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस से हम उद्धार पा सकें ॥

जब उन्होंने ने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा १३ और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचम्भा किया फिर उन को पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था १४ उन के साथ खड़े देखकर वे कुछ विरोध में न कह सके। पर उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस १५ में विचार करने लगे, कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें क्योंकि यरूशलेम के सब रहनेवालों पर प्रगट है कि इन के द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और उस से हम मुकर नहीं सकते। पर इसलिये कि १६ यह बात लोगों में और फैल न जाए हम उन्हें धमका दें कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चिताकर यह कहा कि १७ यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परन्तु पतरस और यूहन्ना ने उन को उत्तर दिया कि १८ तुम ही विचार करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें। क्योंकि यह तो हम से हो नहीं सकता कि जो २० हम ने देखा और सुना है वह न कहे। तब उन्होंने ने २१ उन्हें और धमकाकर छोड़ दिया क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दण्ड देने का कोई दांव नहीं मिला इसलिये कि जो हुआ था उस के लिये सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने २२ का चिन्ह दिखाया गया था चालीस बरस के ऊर था ॥

वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो २३ कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उन से कहा था सो सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने ने एक चित्त होकर ऊंचे २४ शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है जिस ने स्वर्ग और पृथिवी और समुद्र और जो कुछ उन में है बनाया। तू ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे २५ पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने तुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोचीं। प्रभु और उस के मसीह के विरोध २६ में पृथिवी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र सेवक यीशु २७ के विरोध में जिसे तू ने अभिषेक किया हेरोदेस और पुन्तियुस पीलातुस भी अन्य जातियों और इसाईलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। कि जो कुछ पहिले से २८

(१) यू० स्वर्ग उस उस समय तक लिये रहे।

(२) यू० में।

(३) या मृतकोस्थान।



- तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करें ।  
 २९ और अब हे प्रभु उन की धमकियों को देख और अपने दासों को यह बर दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से  
 ३० मुनाएँ । और चंगा करने के लिये अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम  
 ३१ से किए जाएँ । जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे ॥
- ३२ विश्वास करनेवालों की मण्डली एक मन और एक जी हो रही थी यहां तक कि कोई भी अपनी सम्पत्ति  
 ३३ अपनी न कहता था पर सब कुछ साभे का था । और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने का गवाही  
 ३४ देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था । और न कोई उन में से दरिद्र था क्योंकि जिन के पास भूमि या घर थे वे उन को बेच बेच कर बिक्री हुई वस्तुओं का  
 ३५ दाम लाते, और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उस के अनुसार हर एक को बांट देते थे ॥
- ३६ और यूसुफ नाम कुपुस का एक लेवी जिसे  
 ३७ प्रेरितों ने बर-नवा अर्थात् शान्ति का पुत्र कहा, उस की कुछ भूमि थी जिसे उस ने बेचा और रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए ॥

## ५. और हनन्याह नाम एक मनुष्य और

- उस की पत्नी सफीग ने कुछ  
 २ भूमि बेची । और उस के दाम में से कुछ रत्न छोड़ा और यह बात उस की पत्नी भी जानती थी और उस का एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख  
 ३ दिया । परन्तु पतरस ने कहा हे हनन्याह शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से  
 ४ झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े । जब तक यह तेरे पास रही क्या तेरी न थी और जब बिक गई तो क्या तेरे बश में न थी । तू ने यह बात अपने मन में क्यों विचारि । तू मनुष्यों ने नहीं परन्तु परमेश्वर  
 ५ से झूठ बोला । हे बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया और सब सुननेवालों पर बड़ा भय  
 ६ छा गया । और जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर गाड़ दिया ॥
- ७ पहर एक के पीछे उस की पत्नी जो कुछ हुआ

(१) यू० तेरा हाथ ।

था न जानकर भीतर आई । इस पर पतरस ने उस से  
 कहा मुझे बता क्या तुम ने वह भूमि इतने ही में बेची ।  
 उस ने कहा हां इतने ही में । पतरस ने उस से कहा  
 ९ यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की  
 परीक्षा करने का एका बांधा । देख तेरे पति के गाड़ने-  
 वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुम्हें भी बाहर ले जाएंगे ।  
 तब वह तुरन्त उस के पांवों पर गिर पड़ी और प्राण  
 १० छोड़ दिया और जवानों ने भीतर आकर उसे मरी पाया  
 और बाहर ले जाकर उस के पति के पास गाड़ दिया ।  
 और सारी कलीसिया और इन बातों के सब सुननेवालों  
 ११ पर बड़ा भय छा गया ॥

प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत  
 १२ काम लोगों के बीच में दिखाये जाते थे और वे सब एक  
 चित्त होकर जेलैमान के ओभारे में इकट्ठे हुआ करते थे ।  
 और औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि  
 १३ उन में जा मिले तभी लोग उन का बड़ाई करते थे ।  
 और विश्वास करनेवाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु  
 १४ में आ मिलते रहे । यहां तक कि लोग बीमारों को  
 १५ सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते  
 थे कि जब पतरस आए तो उस की छाया ही उन में से  
 किसी पर पड़ जाए । और यरूशलेम के आस पास के  
 १६ नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं  
 के सताए हुएों को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब  
 अच्छे कर दिए जाते थे ॥

तब महायाजक और उस के सब साथी जो सद्-  
 १७ क्रियों के पंथ के थे डाह से भर कर उठे । और प्रेरितों  
 १८ को पकड़कर जेलखाने में बन्द कर दिया । पर रात को  
 १९ प्रभु के एक स्वर्गादूत ने जेलखाने के द्वार खोलकर उन्हें  
 बाहर लाकर कहा, जाओ मन्दिर में खड़े होकर इस  
 २० जीवन की सारी बातें लोगों को सुनाओ । यह सुनकर  
 २१ वे भोर होते ही मन्दिर में जाकर उपदेश करने लगे ।  
 तब महायाजक और उस के साथियों ने आकर महा-  
 सभा को और इस्राइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे  
 किया और जेलखाने में कहला भेजा कि उन्हें लाए ।  
 परन्तु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें जेलखाने में न पाया  
 २२ और लौटकर सदेश दिया, कि हम ने जेलखाने को बड़ी  
 २३ चौकसी से बन्द किया हुआ और पहरेदारों को बाहर  
 द्वारों पर खड़े हुए पाया पर जब खोला तो भीतर कोई  
 न मिला । जब मन्दिर के सरदार और महायाजकों ने  
 २४ ये बातें सुनीं तो उन के विषय भारी चिन्ता में पड़े कि  
 यह क्या हुआ चाहता है । इतने में किसी ने आकर  
 २५ उन्हें बताया कि देखो जिन्हें तुम ने जेलखाने में बन्द

रक्ता था वे मनुष्य मन्दिर में खड़े हुए लोगों को उप-  
 २६ देश दे रहे हैं । तब सरदारप्यादों के साथ लेकर उन्हें  
 ले आया पर बरबस नहीं क्योंकि वे लोगों से डरते थे  
 २७ कि हमें पत्थरवाह न करें । उन्होंने ने उन्हें लाकर महा-  
 सभा के सामने खड़ा किया और महायाजक ने उन से  
 २८ पूछा । क्या हम ने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि  
 इस नाम से उपदेश न करना तौभी देखो तुम ने सारा  
 यरूशलेम अपने उपदेश से भर दिया है और इस  
 २९ मनुष्य का लोहू हम पर लाना चाहते हो । तब पतरस  
 और और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा  
 से बढ़ कर परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए ।  
 ३० हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे  
 ३१ तुम ने काठ पर लटकाकर मार डाला था । उसी को  
 परमेश्वर ने कर्त्ता और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने  
 हाथ से ऊंचा कर दिया कि वह इस्राईलियों के मन-  
 ३२ फिराव और पापों की क्षमा दान करे । और हम इन  
 बातों के गनाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर  
 ने उन्हें दिया है जो उस की मानते हैं ॥  
 ३३ वे यह सुन कर जल गए और उन्हें मार  
 ३४ डालना चाहा । पर गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो  
 व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था सभा में  
 खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिये बाहर कर देने  
 ३५ की आज्ञा दी । तब उस ने कहा हे इस्राईलियों जो  
 कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के  
 ३६ करना । क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह  
 कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ और पाँच चार सौ  
 मनुष्य उस के साथ ही लिए पर वह मारा गया और  
 जितने लोग उसे मानते थे सब तित्तर बित्तर हुए और  
 ३७ मिट गए । उस के पीछे नाम लिखाई के दिनों में यहूदा  
 गलीली उठा और कुछ लोग बहका लिए । वह भी  
 नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब  
 ३८ तित्तर बित्तर ही गए । सो अब मैं तुम से कहता हूँ  
 इन मनुष्यों से हाथ उठाओ और उन से कुछ काम न  
 रखो क्योंकि यदि यह मत या काम मनुष्यों की और  
 ३९ से हो तो मिट जाएगा । पर यदि परमेश्वर की आर  
 से है तो तुम उन्हें मिटा न सकेगे कहीं ऐसा न हो  
 ४० कि तुम परमेश्वर से भी लड़नेवाले ठहरो । तब उन्होंने  
 ने उस की बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर  
 पिटवाया और यह आज्ञा देकर छाड़ दिया कि यीशु के  
 ४१ नाम से बातें न करना । सो वे इस बात से आनन्दित  
 होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उस के नाम

(१) ५० फट गए ।

के लिये निगदर होने के योग्य ठहरो । और दिन दिन ४२  
 मन्दिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात  
 का सुवमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न  
 सके ॥

## ६. उन दिनों में जब चले बहुत हाँते जाने थे तो थूनानी भापा बोलने-

वाले इज्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि दिन दिन की  
 सेवकाई में हमारी बखवाओं की सुध नहीं ली  
 जाती । तब उन बारहों ने चेलों की मण्डली के अपने २  
 पास बुलाकर कहा यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का  
 वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे । इस ३  
 लिये हे भाइयो अपने में ने मात सुनाम पुरुषों का जो  
 पवित्र आत्मा और बुद्धि में भरपूर हो चुन लो कि हम  
 उन्हें इस काम पर ठहरा दें । पर हम तो प्रार्थना में ४  
 और वचन की सेवा में लगे रहेंगे । यह बात सारी  
 मण्डली का अच्छी लगी सो उन्होंने ने स्तिफनुस नाम ५  
 एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा में भरपूर  
 था और फिलिप्पुस और प्रुखरुस और नीकानोर और  
 तीमोन और परमिनास और अन्ताकीवाला नीकुलाउस  
 को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया । और ६  
 इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने ने प्रार्थना  
 करके उन पर हाथ रखे ॥

और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूश- ७  
 लेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और बहुतों  
 याजक इस मत को मानने लगे ॥

स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से भरपूर होकर ८  
 लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया  
 करता था । तब उस सभा में से जो लिबेरीतानों की ९  
 कहलाती थी और कुर्गनों और सिकन्दरिया और काल-  
 किपा और आगिया के लोगों में से कई एक उठकर  
 स्तिफनुस से विवाद करने लगे । पर उन ज्ञान और १०  
 उम आत्मा का जिन से वह बातें करता था वे सामना  
 न कर सके । इस पर उन्होंने ने कई लोगों का उभाड़ा ११  
 जो कहने लगे कि हम ने इस को मूसर और परमेश्वर  
 के विरोध में निन्दा की बातें कहते सुना है । और १२  
 लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को उसकाके चढ़  
 आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए । और १३  
 झूठे गवाह खड़े किये जिन्होंने ने कहा यह मनुष्य इस  
 पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं  
 छोड़ता । क्योंकि हम ने उसे यह कहते सुना है कि १४  
 यही यीशु नासरी इस जगह को हा देगा और उन

१५ रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं । तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस की ओर ताककर उस का स्वर्गदूत का सा चिह्न देखा ॥

**७. तब** महायाजक ने कहा क्या ये बातें यों ही हैं । उस ने कहा हे भाइयो

२ और पितरो सुनो । हमारा पिता इब्राहीम हारान में बसने से पहले जब मिस्रपुतामिया में था तो तेजो  
३ मय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया । और उस से कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुम्ब से निकलकर उस  
४ देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा । तब वह कसदियों के देश से निकल कर हारान में जा बसा और उस के पिता के मरने के पीछे परमेश्वर ने उस को वहां से इस देश में लाकर बसाया जिस में अब तुम बसते  
५ हो और उस को कुछ मीरास बरन पैर रखने भर की भी उस में जगह न दी परन्तु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे पीछे तेरे वंश के हाथ कर दूंगा यद्यपि  
६ उस समय उस के कोई पुत्र न था । और परमेश्वर ने ये कहा कि तेरे सन्तान पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और चार सौ बरस तक  
७ दुख देंगे । फिर परमेश्वर ने कहा जिस जाति के वे दास होंगे उस को मैं दण्ड दूंगा और इस के पीछे वे  
८ निकलकर इसी जगह मेरा सेवा करेंगे । और उस ने उस से खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उस से उत्पन्न हुआ और आठवें दिन उस का खतना किया गया और इसहाक से याकूब और याकूब से  
९ बारह कुलपति उत्पन्न हुए । और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जानेवालों के हाथ बेचा  
१० परन्तु परमेश्वर उस के साथ था । और उसे उस के सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी और उस ने उसे मिस्र पर और  
११ अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया । तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा जिस से भारी क्लेश हुआ और हमारे बापदादों को अन्न न मिलता  
१२ था । पर याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है  
१३ हमारे बापदादों को पहिली बार भेजा । और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों से पहचाना गया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई । तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुम्ब को जो  
१४ पछुत्तर जन थे बुला भेजा । सो याकूब मिस्र में गया  
१५ और वहां वह और हमारे बापदादे मर गए । और वे शिकिम में पहुंचाए जाकर उस कबर में रखे गए जिसे

इब्राहीम ने चांदी देकर शिकिम में हमोर के सन्तान से मोल लिया था । पर जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने  
१७ का समय निकट आया जो परमेश्वर ने इब्राहीम से की थी तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए, जब तक कि मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ  
१८ को न जानता था । उस ने हमारी जाति से चतुराई  
१९ करके हमारे बापदादों के साथ यहां तक बुराई की कि उन्हें अपने बालकों को फेंकना पड़ा कि जीत न रहें । उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुन्दर था  
२० और वह तीन महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया । पर जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने  
२१ उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला । और  
२२ मूसा का मिस्रियों की सारी विद्या पढाई गई सो वह बातों और कामों में सामर्थी था । जब वह चालीस एक  
२३ बरस का हुआ तो उस के मन में आया कि मैं अपने इस्राइली भाइयों से भेंट करूं । और उस ने एक पर  
२४ अन्याय होत देखकर उसे बचाया और मिस्रों को मार कर सताए हुए का पलटा लिया । उस ने सोचा कि  
२५ मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उन का उद्धार करेगा पर उन्होंने न समझा । दूसरे दिन जब  
२६ वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहा आ निकला और यह कहके उन्हें मेल करने का मनाया कि हे पुरुषों तुम तो भाई भाई हो एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो । पर जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उस ने  
२७ उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे लख ने हम पर हाकिम और न्याई ठहराया है । क्या जिस रात से तू  
२८ ने कल मिस्रों को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है । यह बात सुनकर मूसा भागा और मिस्रान  
२९ देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहा उस के दो पुत्र उत्पन्न हुए । जब पूरे चालीस बरस बीत गए तो  
३० एक स्वर्ग दूत ने सीना पहाड़ के जगल में उसे जलती हुई झाड़ी के ज्वाला में दर्शन दिया । मूसा ने उस  
३१ दर्शन को देखकर अचम्भा किया और जब देखने के लिये पास गया तो प्रभु का शब्द हुआ, कि मैं तेरे बाप-  
३२ दादों इब्राहीम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं । तब मूसा इस से कांपने लगा यहां तक कि उसे देखने का हियाव न रहा । तब प्रभु ने उस से कहा अपने  
३३ पांवों से जूती उतार ले क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है । मैं ने सचमुच अपने लोगों की  
३४ दुर्दशा जो मिस्र में है देखी है और उन की आह और रोना सुन लिया है इसलिये उन्हें छुड़ाने को उतरा हूं ।

(१) यूसुफ उन्हें दिखाई दिया ।

३५ अब आ मैं तुम्हें मिसर में भेजूंगा । जिस मूसा को  
उन्होंने यह कह कर नकारा था कि तुम्हें किस ने  
हाकिम और न्यायी ठहराया है उसी को परमेश्वर ने  
हाकिम और छुड़ानेवाला ठहराकर उस स्वर्ग दूत के  
३६ द्वारा जिस ने उसे झाड़ी में दर्शन दिया भेजा । यही  
मिसर और लाल समुद्र और जंगल में चालीस बरस तक  
अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल  
३७ लाया । यह वही मूसा है जिस ने इस्राईलियों से कहा  
कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिये मुझ  
३८ सा एक नबी उठाएगा । यह वही है जिस ने जंगल में  
मण्डली के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीना पहाड़ पर  
उस से बातें कीं और हमारे बाप दादों के साथ था ।  
उसी को जीवित वाणियों मिली कि हम तक पहुंचाए,  
३९ पर हमारे बाप दादों ने उस की मानना न चाहा बरन  
४० उसे हटाकर अपने मन मिसर की आर फेर । और  
हारून से कहा हमारे लिये ऐसे देवता बना जो हमारे  
आगे आगे चलें क्योंकि यह मूसा जो हमें मिसर देश  
४१ से निकाल लाया हम नहीं जानते वह क्या हुआ । उन  
दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उस को मूरत के  
आगे बलि चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मगन  
४२ होने लगे । सा परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़  
दिया । कि आकाशगण पूजे जैसा नबियों की पुस्तक में  
लिखा है कि हे इस्राईल के धराने क्या तुम जंगल में  
चालीस बरस तक पशुबलि और अन्नबलि मुझ ही को  
४३ चढ़ाते रहें । और तुम मोलोक के तम्बू और रिफान  
देवता के तार के लिये फिरते थे अथात् उन आकारों  
का जिन्हें तुम ने दण्डवत् करने के लिये बनाया था ।  
४४ सा मैं तुम्हें बाबिल के पर ले जाकर बसाऊंगा । साक्षात्  
का तम्बू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था  
जैसा उस ने ठहराया । जिस ने मूसा से कहा कि जो  
४५ आकार तू ने देखा है उस के अनुसार इसे बना । उसी  
तम्बू का हमारे बाप दादे अगलों से पाकर यहाशू के  
साथ यहां ले आए जिस समय कि उन्होंने ने  
उन अन्यजातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने  
हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया और वह  
४६ दाऊद के समय तक रहा । उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह  
किया सो उस ने बिनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर  
४७ के लिये निवास स्थान ठहराऊँ । पर सुलैमान ने उस  
४८ के लिये घर बनाया । परन्तु परम प्रधान हाथ के  
बनाये घरों में नहीं रहता जैसा कि नबी ने कहा कि,  
४९ प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथिवी मेरे  
पांवों के लिये पीढ़ी है मेरे लिये तुम किस प्रकार का

घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा ।  
क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं ॥ ५०  
हे हठीले और मन और कान के स्वतन्त्र रहित  
लोगों तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करने हो ।  
जैसे तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते ५१  
हो । नबियों में से किस को तुम्हारे बाप दादों ने न ५२  
सताया और उन्होंने ने उस धर्मी के आने का आगे से  
सन्देश देनेवाले का भार डाला और अब तुम भी  
उस के पकड़वानेवाले और भार डालनेवाले हुए ।  
तुम ने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई ५३  
पर माना नहीं ॥

ये बातें सुनकर वे जल गये और उस पर दांत ५४  
पासने लगे । पर उस ने पवित्र आत्मा से भरपूर हो ५५  
स्वर्ग की ओर ताका और परमेश्वर की महिमा को  
और याशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर  
कहा, देखो मैं स्वर्ग का खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र ५६  
को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ । तब ५७  
उन्होंने ने भड़े शब्द से चिल्लाकर कान बन्द कर लिए  
और एक चित्त होकर उस पर झपटे । और उसे नगर ५८  
के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे और गवाहों  
ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांवों के  
पास उतार रखे । सा वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते ५९  
रहे और यह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु  
यीशु मेरे आत्मा को ग्रहण कर । फिर घुटने टेक कर ६०  
ऊंचे शब्द से पुकारा हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा  
और यह कह कर सो गया । और शाऊल उस के बध  
में सम्मत था ॥

८. उसी दिन यरूशलेम में की मण्डली पर  
बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रैरितों को  
छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में उत्तर  
वित्तर हो गए । भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रक्खा २  
और उस के लिये बड़ा विलाप किया । शाऊल मण्डली  
को उजाड़ रहा था कि घर घर घुस कर पुरुषों और ३  
स्त्रियों को घसीट घसीट कर जेलखाने में डालता था ॥  
जो तित्तर वित्तर हुए वे व सुसमाचार सुनाते ४  
हुए फिर । और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर ५  
लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा । और जो ६  
बातें फिलिप्पुस ने कहीं लोगों ने सुन सुनके और जो  
चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देखकर एक चित्त ७  
होकर मन लगाया । क्योंकि बहुतों में से जिन में अशुद्ध

- आत्मा थे वे बड़े शब्द से चिल्लाते हुए निकल गये और बहुत से भोले के भार हुए और लंगड़े अन्धे किये गए ।
- ८ और उस नगर में बड़ा आनन्द हुआ ॥
- ९ इस में पहिले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था ।
- १० और सब छोटे से बड़े तक उसे मान कर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कह-  
११ लाती है । उस ने बहुत दिनों से उन्हें अपने टाने के कामों से चाकित कर रक्खा था इसी लिये वे उस को  
१२ बहुत मानते थे । पर जब उन्होंने फिलिप्पुस का प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमा-  
१३ चार सुनाता था तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपातसमा लेने लगे । तब शमौन ने आप भा प्रतीति का और बपातसमा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था ॥
- १४ जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में ये सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पत-  
१५ रस और यूहन्ना को उन के पास भेजा । और उन्होंने ने जाकर उन के लिये प्रार्थना की । एक पवित्र आत्मा पाए ।
- १६ क्योंकि वह अब तक उन में से किसी पर न उतरा था उन्होंने ने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपातसमा  
१७ लिया था । तब उन्होंने ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने  
१८ ने पवित्र आत्मा पाया । जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उन  
१९ के पास रुपये लाकर कहा कि, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूँ वह पवित्र आत्मा  
२० पाए । पतरस ने उस से कहा तैरे रुपये तैरे साथ नाश हों क्योंकि तू ने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने  
२१ का विचार किया । इस बात में न तेरा हिस्सा है न बाटा  
२२ क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सांधा नहीं । इस-  
लिये अपनी इस बुराई से मन फराकर प्रभु से प्रार्थना कर क्या जाने तैरे मन का विचार क्षमा किया जाए ।
- २३ क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और  
२४ अधर्म के बन्धन में पड़ा है । शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिये प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुम ने कहीं उन में से कोई मुझ पर न आए पड़े ॥
- २५ सो वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुना कर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत गांवों में सुसमाचार सुनाते गए ॥
- २६ फिर प्रभु के एक स्वर्ग दूत ने फिलिप्पुस से कहा उठकर दक्खिन की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम

से अड़जाह को जाता है और जंगल में है । वह उठकर २७ चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य जो खोजा और कृशियों की रानी कन्दाके का मन्त्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था । और २८ वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता हुआ लाट रहा था । तब आत्मा ने २९ फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले । फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह नबी ३० की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है उससे समझता भी है । उस ने कहा जब तक कोई ३१ मुझे न समझाए तो मैं क्याकर समझूँ और उस ने फिलिप्पुस से बिनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ । पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह ३२ था कि वह भेड़ का नाहें बंध होने को पहुंचाया गया और जैसा मन्ना अपने ऊन कतरनेवाला के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उस ने भी अपना मुंह न खोला । उस की दानता में उस का न्याय होने नहीं ३३ पाया और उस के समय के लोगों का वचन कौन करेगा क्योंकि पृथिवी से उस का प्राण उठाया जाता है । इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा मैं तुझ से बिनती ३४ करता हूँ नबी यह किस के विषय कहता है अपने या किसी दूसरे के विषय । तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह ३५ खोला और इसी शास्त्र से आरम्भ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया । मार्ग में चलते चलते वे किसी जल ३६ की जगह पहुंचे तब खोजे ने कहा देख जल है अब मुझे बपातसमा लेने में क्या रोक है । तब उस ने रथ खड़ा ३८ करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उस ने उसे बपातसमा दिया । जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का ३९ आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनन्द करता हुआ अपने मार्ग चला गया । और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और ४० जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया ॥

## ९. शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों के धमकाने और घात करने

की धुन में था महायाजक के पास गया । और उस से २ दमिश्क की सभाओं के नाम पर इस मतलब की

(१) या पढ़ी । (२) योंकि इन लेखों में ३७ पद मिलता है अर्थात् । फिलिप्पुस ने कहा यदि तू नगर में विश्वास करता है तो ही समझता है । उस ने उत्तर दिया मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ।

चिट्ठियां मांगीं कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ  
 ३ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए । पर चलते  
 चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक  
 ४ आकाश से उस के चारों ओर ज्योति चमकी । और वह  
 भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल हे  
 शाऊल तू मुझे क्यों सताता है । उस ने पूछा हे प्रभु तू  
 ५ कौन है । उस ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है ।  
 ६ पर उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझ  
 ७ से कहा जाएगा । जो मनुष्य उस के साथ थं थं चुपचाप  
 रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे पर किसी का देखते न  
 ८ थे, तब शाऊल भूमि पर से उठा पर जब आंखें खोलीं  
 तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उस का हाथ पक-  
 ९ डके दमिश्क में ले गये । और वह तीन दिन तक न  
 देख सका और न खाया न पिया ॥

१० दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था उस से  
 प्रभु ने दर्शन में कहा हे हनन्याह उस ने कहा हां प्रभु ।  
 ११ तब प्रभु ने उस से कहा उठकर उस गली में जा जो  
 सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक  
 तारसी का पूछ ले क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है ।  
 १२ और उस ने हनन्याह नाम एक पुरुष को भांतर आते  
 और अपने ऊपर हाथ रखते देखा कि फिर देखने लगे ।  
 १३ हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु मैं ने इस मनुष्य के  
 विषय बहुतों से सुना है कि इस ने यरूशलेम में तेरे  
 पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं । और  
 १४ यहां भी इस को महायाजकों की ओर से अधिकार मिला  
 है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब का बांध ले ।  
 १५ परन्तु प्रभु ने उस से कहा चला जा क्योंकि यह तो अन्य  
 जातियों और राजाओं और इस्राईलियों के सामने मेरा  
 १६ नाम पहुंचाने के लिये मेरा चुना हुआ पात्र है । और मैं  
 उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिये उसे कैसा कैसा दुख  
 १७ उठाना पड़ेगा । तब हनन्याह उठकर उस घर में गया  
 और उस पर हाथ रखकर कहा हे भाई शाऊल प्रभु अर्थात्  
 यीशु जो उस रास्ते में जिस से तू आया तुझे दिखाई  
 दिया उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर देखने लगे और  
 १८ पवित्र आत्मा से भर जाए । और तुरन्त उस की आंखों  
 से छिलके से गिर और वह देखने लगा और उठकर  
 वपतिसमा लिया फिर भोजन करके बल पाया ॥

१९ और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो  
 २० दमिश्क में थे । और वह तुरन्त सभाओं में यीशु का  
 २१ प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है । और  
 सब सुननेवाले चकित होकर कहने लगे क्या यह वही  
 नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम का लेते थे नाश

करता था और यहां भी इसलिये आया था कि उन्हें  
 बांधे हुए महायाजकों के पास ले जाए । पर शाऊल २२  
 और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे  
 देकर कि मसीह यही है दमिश्क के रहनेवाले यहूदियों  
 का मुंह बंद करता था ॥

जब बहुत दिन बीत गये तो यहूदियों ने मिल- २३  
 कर उस के मार डालने की युक्त निकाली । पर उन की २४  
 युक्त शाऊल को मालूम हो गई । वे तो उस के मार  
 डालने के लिये रात दिन फाटकों पर लगे रहते थे । पर २५  
 रात को उस के चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया  
 और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार दिया ॥

यरूशलेम में पहुंच कर उस ने चेलों के साथ मिल २६  
 जाने का उपाय किया पर सब उस से डरते थे क्योंकि  
 उन को प्रतीति न होती थी कि वह भी चेला है । पर २७  
 बरनबा उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले गया और उन  
 में कहा कि इस ने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा  
 और उस ने हम से बातें कीं फिर दमिश्क में यह कैसा २८  
 निधड़क होकर यीशु के नाम में बोला । सा वह उन के  
 साथ यरूशलेम में आता जाता रहा, और निधड़क होकर २९  
 प्रभु के नाम से बातें करता था और यूनानी भाषा बोलने-  
 वाले यहूदियों के साथ बातचीत और बाद विवाद करता  
 था पर वे उस के मार डालने का यत्न करने लगे । यह ३०  
 जानकर भाई उसे कै-रिया में ले आए और तरसुस की  
 ओर भेजा ॥

सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में ३१  
 कलीसिया को चैन मिला और वह उन्नति करती गई  
 और प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शान्ति में  
 चलती और बढ़ती जाती थी ॥

और पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र ३२  
 लोगों के पास भी पहुंचा जो लुदा में रहते थे । वहां ३३  
 उसे ऐनियास नाम भोले का मारा हुआ एक मनुष्य  
 मिला जो आठ बरस से खाट पर पड़ा था । पतरस ने ३४  
 उस से कहा हे ऐनियास यीशु मसीह तुझे चंगा करता  
 है उठ अपना बिछोना बिछा तब वह तुरन्त उठ खड़ा  
 हुआ । और लुदा और शारोन के सब रहनेवाले उससे ३५  
 देखकर प्रभु की ओर फिर ॥

याफा में तबीता अर्थात् दोरकास नाम एक ३६  
 विश्वासिनी रहती थी वह बहुतेरे भले भले काम और  
 दान किया करती थी । उन्हीं दिनों में वह बीमार हो ३७  
 कर मर गई और उन्हीं ने उसे नहलाकर अटारी पर रख  
 दिया । और इसलिये कि लुदा याफा के निकट था ३८  
 चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है दो मनुष्य भेज-

कर उस से विनती की कि हमारे पास आने में देर न  
३९ कर । तब पतरस उठकर उन के साथ हो लिया और जब  
पहुँच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए और सब  
विधवाएँ रोती हुई उस के पास आ खड़ी हुईं और जो  
४० कुरते और कपड़े दोरकास ने उन के साथ रहते हुए बनाए  
थे दिखाने लगीं । तब पतरस ने सब को बाहर कर दिया  
और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देख-  
कर कहा हे तबीता उठ । तब उस ने अपनी आंख खोल  
४१ दीं और पतरस को देखकर उठ बैठी । उस ने हाथ देकर  
उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुला-  
४२ कर उसे जीती जागती दिवा दिया । यह बात सारे याफा  
में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया ।  
४३ और पतरस याफा में शमौन नाम किसी चमड़े के धन्धे  
करनेवाले के यहां बहुत दिन रहा ॥

### १० कैमरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी

२ नाम पलटन का सूबेदार था । वह भक्त था और अपने  
सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदी लोगों  
को बहुत दान देता और नगबर परमेश्वर में प्रार्थना  
३ करता था । उस ने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन  
में साफ साफ देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे  
४ पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस । उस ने  
उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा हे प्रभु क्या है ।  
उस ने उस से कहा तेरी प्रार्थनाएँ और तेरे दान स्मरण  
५ के लिये परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं । और अब याफा  
में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाना है  
६ बुलावा ले । वह शमौन चमड़े के धन्धे करनेवाले के  
७ यहां पाहुन है जिस का घर समुद्र के किनारे है । जब वह  
स्वर्गदूत जिस ने उस से बातें की थी चला गया तो उस  
ने दो सेवक और जो उस के पास हाज़िर रहा करते थे  
८ उन में से एक भक्त सिपाही को बुलाया । और उन्हें सब  
बातें बताकर याफा को भेजा ॥  
९ दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास  
पहुँचे तो दो पहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना  
१० करने चढ़ा । और उसे भुंग लगी और कुछ भ्राना  
चाहता था पर जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध  
११ हो गया । और उस ने देखा कि आकाश खुल गया और  
एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता  
१२ हुआ पृथिवी की ओर उतर रहा है, जिस में पृथिवी के  
सब प्रकार के चौपाए और रेंगनेवाले जन्तु और आकाश

(१) यू० । रश्मल या पजा ।

के पत्नी थे । और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि १३  
हे पतरस उठ माग और खा । पतरस ने कहा नहीं १४  
प्रभु नहीं क्योंकि मैं ने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध  
वस्तु नहीं खाई । फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई १५  
दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू  
अशुद्ध मत कह । तीन बार ऐसा ही हुआ तब तुरन्त १६  
वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया ॥

जब पतरस अपने मन में दुबधा में पड़ा था कि १७  
यह दर्शन जो मैं ने देखा क्या है तो देखो वे मनुष्य  
जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता  
लगाकर डेबडी पर आ खड़े हुए । और पुकार कर पूछने १८  
लगे क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहीं पाहुन है ।  
पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने १९  
उस से कहा देख तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं । तो २०  
उठकर नीचे जा और देखके उन के साथ हो ले  
क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है । तब पतरस ने उतरकर २१  
उन मनुष्यों से कहा देखो जिस की खोज तुम कर रहे  
हो वह मैं ही हूँ तुम्हारे आने का क्या कारण है । उन्हीं २२  
ने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर  
से डरनेवाला और सारी यहूदी जाति में मुनामी मनुष्य  
है उस ने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चितावनी पाई है  
कि तुम्हें अपने घर बुलाकर तुम्ह से वचन सुने । तब उस २३  
ने उन्हें भीतर बुलाकर उन की पहुनाई की ॥

और दूसरे दिन वह उन के साथ गया और याफा २४  
के भाइयों में से कई एक उस के साथ हो लिए । दूसरे  
दिन वे कैमरिया में पहुँचे और कुरनेलियुस अपने कुटु-  
म्बियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उन की बाट जोह  
रहा था । जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरने- २५  
लियुस ने उस से भेंट की और पांवों पड़के प्रणाम  
किया । परन्तु पतरस ने उसे उठाकर कहा खड़ा हो मैं २६  
भी तो मनुष्य हूँ । और उस के साथ बातचीत करना २७  
हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर,  
उन से कहा तुम जानते हो कि अन्यजाति की संगति २८  
करना या उस के यहां जाना यहूदों के लिये अधर्म है  
परन्तु परमेश्वर ने मुझे बनाया है कि किसी मनुष्य को  
अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ । इस लिये मैं जब बुलाया २९  
गया तो बिना कुछ कहे चला आया सो मैं पूछता हूँ  
कि मुझे किस काम के लिये बुलाया है । कुरनेलियुस ३०  
ने कहा कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए कि मैं अपने  
घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक  
पुरुष चमकता वस्त्र पहिने हुए मेरे सामने आ खड़ा  
हुआ । और कहने लगा हे कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना ३१

- सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण  
 ३२ किये गए हैं । इसलिये किसी को याफा भेज कर शमौन  
 को जो पतरस कहलाता है बुला । वह समुद्र के किनारे  
 शमौन चमड़े के धन्धा करनेवाले के घर में पाहुन है ।  
 ३३ तब मैं ने तुरन्त तेरे पास लोग भेजे और तू ने भला किया  
 जो आ गया । अब हम सब यहां परमेश्वर के सामने हैं  
 इसलिये कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझ से कहा है उसे  
 ३४ सुनें । तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा,  
 ३५ अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का  
 पक्ष नहीं करता बरन हर जाति में जो उस से डरता  
 ३६ और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है । जो वचन  
 उस ने इस्राईलियों के पास भेजा जब कि उस ने यीशु  
 मसीह के द्वारा जो सब का प्रभु है शान्ति का सुसमाचार  
 ३७ सुनाया । वह बात तुम जानते हो जो यहूजा के बपतिसमा  
 के प्रचार के पीछे गलील से आरंभ कर सारे यहूदिया में  
 ३८ फैल गई । कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को  
 पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया । वह भलाई  
 करता और सब को जो शैतान<sup>१</sup> के सत्ताप हुए थे अच्छा  
 ३९ करता फिर क्योंकि परमेश्वर उस के साथ था । और  
 हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उस ने यहूदिया के  
 ४० पर लटकाकर मार डाला । उस को परमेश्वर ने तीसरे  
 ४१ दिन जिलाया और दिखा भी दिया, सब लोगों को नहीं  
 बरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से चुन  
 लिया था अर्थात् हम को जिन्होंने उस के मरे हुएों में से  
 ४२ जी उठने के पीछे उस के साथ खाया पिया । और उस  
 ने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही  
 दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे  
 ४३ हुएों का न्याया ठहराया है । उस की सब नवी गवाही  
 देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उस को उस  
 के नाम के द्वारा क्षमा मिलेगी ॥  
 ४४ पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा  
 ४५ वचन के सब सुननेवालों पर उतर आया । और जितने  
 स्वतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे  
 चकित हुए कि अन्यजातियों पर भी पवित्र आत्मा का  
 ४६ दान उंडेला गया है । क्योंकि उन्होंने ने उन्हें भांति भांति  
 की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना ।  
 ४७ इस पर पतरस ने कहा क्या कोई जल की रोक कर  
 सकता है कि ये बपतिसमा न पाएं जिन्होंने ने हमारी नाई

पवित्र आत्मा पाया है । और उस ने आज्ञा दी कि ४८  
 उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिसमा दिया जाए ।  
 तब उन्होंने ने उस से विनती की कि कुछ दिन हमारे  
 साथ रह ॥

## ११. और प्रेरितों और भाइयों ने जो

यहूदिया में थे सुना कि  
 अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया  
 है । और जब पतरस यरूशलेम में आया तो स्वतना किए २  
 हुए लोग उस से विवाद करने लगे, कि तू ने स्वतना ३  
 रहित लोगों के यहां जाकर उन के साथ खाया । तब ४  
 पतरस ने उन्हें आरम्भ से सिलसिलेवार कह सुनाया  
 कि, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुच ५  
 होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के  
 समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर  
 मेरे पास आया । जब मैं ने उस पर ध्यान किया तो ६  
 पृथिवी के चौगए और बनरशु और रंगेनेवाले जन्तु और  
 आकाश के पक्षी देखे । और यह शब्द भी सुना कि हे ७  
 पतरस उठ मार और खा । मैं ने कहा नहीं प्रभु नहीं ८  
 क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी  
 नहीं गई । इस के उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द ९  
 हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध  
 मत कह । तीन बार ऐसा ही हुआ तब सब कुछ फिर १०  
 आकाश पर खींचा गया । और देखो तुरन्त तीन मनुष्य ११  
 जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गये थे उम घर पर जिस  
 में हम थे आ खड़े हुए । तब आत्मा ने मुझ से उन के १२  
 साथ बेखटके हो लेने को कहा और ये छः भाई भी मेरे  
 साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर में गए ।  
 और उस ने बताया कि मैं ने एक स्वर्गदूत को अपने १३  
 घर में खड़ा देखा जिस ने मुझ से कहा कि याफा में  
 मनुष्य मेज़दर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा  
 ले । वह तुम से ऐसी बातें कहेगा जिन के द्वारा तू और १४  
 तेरा सारा घराना उद्धार पायगा । जब मैं बातें करने १५  
 लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस  
 रीति से आरम्भ में हम पर उतरा था । तब मुझे प्रभु १६  
 का वह वचन स्मरण आया जो उस ने कहा कि यहूजा  
 ने तो पानी से बपतिसमा दिया पर तुम पवित्र आत्मा  
 से बपतिसमा पाओगे । सो जब कि परमेश्वर ने उन्हें भी १७  
 वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास  
 करने से मिला था तो मैं कौन था जो परमेश्वर को  
 रोक सकता । यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर १८  
 की बड़ाई करके कहने लगे तब तो परमेश्वर ने अन्य

(१) यू० । इबलीस (२) यू० । बहाया ।



जातियों को भी जीवन के लिये मन फिराव का दान दिया है ॥

- १९ सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तित्तर बित्तर हो गए वे वे फिरते फिरते फीनीके और कुप्रुसी और अन्ताकिया में पहुंचे पर यह-  
 २० दियों को छोड़ किसी और को बचन न सुनाते थे । पर उन में से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो अन्ताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार  
 २१ की बातें सुनाने लगे । और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे ।  
 २२ तब उन की चर्चा यरूशलेम की मण्डली के सुनने में आई और उन्होंने ने बरनबा को अन्ताकिया भेजा ।  
 २३ वह वहां पहुंच कर और परमेश्वर के अनुग्रह को देख-  
 २४ कर आनन्दित हुआ और सब को उपदेश दिया कि जी लगाकर प्रभु से लिगटे रहो । क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से भरपूर था और  
 २५ बहुत लोग प्रभु में आ मिले । तब वह शाऊल को ढूंढने  
 २६ के लिये तरसुस को गया । और जब वह मिल गया तो उसे अन्ताकिया में लाया और वे बरस भर तक मण्डली के साथ मिलते रहे और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चले सब से पहिले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाये ॥  
 २७ उन्हीं दिनों में कई नबी यरूशलेम से अन्ताकिया  
 २८ में आए । उन में से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा के सिखाने से बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा और वह अकाल झौदियुस के समय में  
 २९ पड़ा । तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहनेवाले भाइयों की सेवा  
 ३० के लिये कुछ भेजे । और उन्होंने ने ऐसा ही किया और बरनबा और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेजा ॥

**१२. उस समय हेरोदेस राजा ने मण्डली के कई एक जनों को दुख देने के लिये**

- १ उन पर हाथ डाले । उस ने यहूजा के भाई याकूब को  
 २ तलवार से मरवा डाला । और जब उस ने देखा कि यहूदी लोग इस से आनन्दित होते हैं तो उस ने पतरस को भी पकड़ लिया । वे दिन अरबमीरी रोटी के  
 ४ दिन थे । और उस ने उसे पकड़ के जेलखाने में डाला और रखवाली के लिये चार चार सिपाहियों के चार पहरो में रक्खा इस मनसा से कि फसह के  
 ५ पीछे उसे लोगों के सामने लाए । सो जेलखाने में

पतरस की रखवाली हो रही थी, पर मण्डली उस के लिये लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी । और जब हेरोदेस उसे उन के सामने लाने को था तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरेदार द्वार पर जेलखाने की रखवाली कर रहे थे । तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उस ने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ फुरती कर और उस के हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ीं । तब स्वर्गदूत ने उस से कहा कमर बांध और अपने जूते पहिन ले । उस ने वैसा ही किया फिर उस ने उस से कहा अपना बख्त पहिन कर मरे पीछे हो ले । वह निकल कर उस के पीछे हो लिया पर यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच्चा है बरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं । तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकल कर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है वह उन के लिये आप से आप खुल गया सो वे निकल कर एक ही गली होकर गए इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़ कर चला गया । तब पतरस ने सचेत होकर कहा अब मैं ने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी । और यह सोचकर वह उस यहूजा की माता मरयम के घर आया जो मरकुस कहलाता है वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे । जब उस ने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई । और पतरस का शब्द पहचानकर उस ने आनन्द के मारे फाटक न खोला पर दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है । उन्होंने ने उस से कहा तू पागल है पर वह दड़ता से बोली कि ऐसा ही है तब उन्होंने ने कहा उस का स्वर्गदूत होगा । पर पतरस खटखटाता ही रहा सो उन्होंने ने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए । तब उस ने उन्हें हाथ से सैन किया कि चुप रहें और उन को बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे जेलखाने से निकाल लाया । फिर कहा कि याकूब और भाइयों को यह बात कह देना तब निकल कर दूसरी जगह चला गया । विहान हुए सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस क्या हुआ । जब हेरोदेस ने उस की खोज की और न पाया तो पहरेदारों की जांच करके आशा की कि वे मार डाले जाएं और वह यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा ॥

- २० और वह सूर और सैदा के लोगों से बहुत रिसियाया हुआ था सो वे एक चित्त होकर उस के पास आए और बलास्तुस को जो राजा का एक कर्मचारी<sup>१</sup> था मनाकर मेल चाहा क्योंकि राजा के देश से उन के देश का पालन होता था । और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवज्र पहिनकर सिंहासन पर बैठा और उन को व्याख्यान देने लगा । और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है । तब प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरन्त उसे मारा क्योंकि उस ने परमेश्वर की महिमा न की और वह कीड़े पड़के मर गया ॥
- २४ परन्तु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया ॥
- २५ जब बरनबा और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से लौटे ॥

### १३. अन्ताकिया की मण्डली में कितने नबी और उपदेशक थे

- अर्थात् बरनबा और शमौन जो नीगर कहलाता है और लूकियुस कुरेनी और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूधभाई मनाहेम और शाऊल । जब वे उपवास सहित प्रभु की उपास कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे निमित्त बरनबा और शाऊल को उस काम के लिये अलग करो जिस के लिये मैं ने उन्हें बुलाया है । तब उन्होंने ने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया ॥
- ४ सो वे पवित्र आत्मा के मेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज़ पर कुप्रुस को चले । और सलमीस में पहुंच कर परमेश्वर का वचन यहूदियों की सभाओं में सुनाया और यूहन्ना उन का सेवक था । और उस सारे टापू में होते हुए पाफ़ुस तक पहुंचे वहां उन्हें बार-यीशु नाम एक यहूदी टोन्हा और छूटा नबी मिला । वह सिरगियुस पौलुस सूबे के साथ था जो बुद्धिमान् पुरुष था । उस ने बरनबा और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा । पर इलीमास टोन्हे ने क्योंकि यही उस के नाम का अर्थ है उन का सामना करके सूबे<sup>२</sup> के विश्वास करने से रोकना चाहा । तब शाऊल ने जिस का नाम पौलुस भी है पवित्र आत्मा से भरपूर हो उसी की ओर टकटकी लगाकर कहा,

(१) या कंचुकी ।

(२) यू० प्रतिनिधि ।

हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान<sup>३</sup> के सन्तान सकल धर्म के बैरी क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा । अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूरज को न देखेगा । तुरन्त धुन्धलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा कि कोई उस का हाथ पकड़ के ले चले । तब सूबे<sup>४</sup> ने जो हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया ॥

पौलुस और उस के साथी पाफ़ुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया । और पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अन्ताकिया में पहुंचे और विश्राम के दिन सभा में जाकर बैठ गए । और व्यवस्था और नबियों की पुस्तक से पढ़ने के पीछे सभा के सरदारों ने उन के पास कहला मेजा कि हे भाइयो यदि लोगों के उपदेश के लिये तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो । तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से सैन करके कहा ॥

हे इस्राईलियो और परमेश्वर से डरनेवालो सुनो । इन इस्राईली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बापदादों को चुन लिया और जब ये लोग मिसर देश में परदेशी होकर रहते थे तो उन की उन्नति की और बलवन्त भुजा से निकाल लाया । और वह कोई चालीस बरस तक जंगल में उन की सहता रहा । और कनान देश में सात जातियों का नाश करके उन का देश कोई साढ़े चार सौ बरस में इन की मीरास में कर दिया । इस के पीछे उस ने समवील नबी तक उन में न्यायी ठहराए । उस के पीछे उन्होंने ने राजा चाहा तब परमेश्वर ने चालीस बरस के लिये विनयामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात् कीश के पुत्र शाऊल को उन पर ठहराया । और उसे अलग करके दाऊद को उन का राजा बनाया जिस के विषय में उस ने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिश्ई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा । इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राईल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात् यीशु को भेजा । जिस के आने से पहिले यूहन्ना ने सब इस्राईलियों को मन फिराव के अपतिसमा का प्रचार किया । और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने पर था तो उस ने कहा

(३) यू० इबलीस । (४) यू० प्रतिनिधि ।

तुम मुझे क्या समझते हो । मैं वह नहीं बरन देखो मेरे पीछे एक आनेवाला है जिस के पांवों की जूती मैं खोलने योग्य नहीं । हे भाइयो तुम जो इब्राहीम के वंश के सन्तान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन मेजा गया है । क्योंकि यरूशलेम के रहनेवालों और उन के सरदारों ने न उसे पहचाना और न नबियों की बातें समझीं जो हर विश्राम के दिन पढ़ी जाती हैं इसलिये उसे दोषी ठहराकर उन के पूरा किया । उन्होंने ने मार डालने योग्य कोई दोष उस में न पाया तौभी पीलातुस से बिनती की कि वह मार डाला जाए । और जब उन्होंने ने उस के विषय लिखी हुई सब बातें पूरी कीं तो उसे काठ पर से उतारकर क्रबर में रक्खा । परन्तु परमेश्वर ने उसे मरे हुआओं में से जिलाया । और वह उन्हें जो उस के साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने अब वे ही उस के गवाह हैं । और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय जो बापदादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि, परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वहां प्रतिज्ञा हमारे सन्तान के लिये पूरी की जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है आज मैं ही ने तुम्हें जन्माया है । और उस के इस रीति से मरे हुआओं में से जिलाने के विषय कि वह कभी न मड़े उस ने यों कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूंगा । इसलिये उस ने एक और भजन में भी कहा है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा । क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बापदादों में जा मिला और सड़ भी गया । पर जिस को परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने न पाया । इसलिये हे भाइयो तुम जानो कि इसी के द्वारा पापों की छमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है । और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष न ठहर सकते थे उन्हीं सब से हर एक विश्वास करनेवाला उस के द्वारा निर्दोष ठहरता है । इसलिये चौकस रहो ऐसा न हो कि जो नबियों की पुस्तक में आया है तुम पर आ पड़े, कि हे निन्दा करनेवालो देखो और चकित हो और मिट जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूं ऐसा काम कि यदि कोई तुम से उस की चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति न करोगे ॥

उन के बाहर निकलते समय लोग उन से बिनती करने लगे कि अगले विश्राम के दिन हमें ये बातें सुनाई

जाएं । और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतों ने पौलुस और बरनबा के पीछे हो लिये और उन्हीं ने उन से बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे ॥

अगले विश्राम के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए । पर यहूदी भोड़ को देखकर डाह से भर गए और निन्दा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे । तब पौलुस और बरनबा ने निडर होकर कहा अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहिले तुम्हें सुनाया जाता पर जब कि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनन्त जीवन के योग्य नहीं ठहराते तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं । क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैं ने तुम्हें अन्य जातियों के लिये उपाति ठहराया है कि तू पृथिवी की छोर तक उद्धार का द्वार हो । यह सुनकर अन्यजाति आनन्दित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे और जितने अनन्त जीवन के लिये ठहराए गए थे उन्हीं ने विश्वास किया । तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा । पर यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उसकाया और पौलुस और बरनबा पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया । तब वंउन के सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को गए । और चले आनन्द से और पवित्र आत्मा से भरपूर होते रहे ॥

### १४ इकुनियुम में वे यहूदियों की सभा में

साथ साथ गए और ऐसी बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया । पर न माननेवाले यहूदियों ने अन्यजातियों के मन भाइयों के विरोध में उसकाये और बुरे कर दिए । सो वे बहुत दिन वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उन के हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था । और नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी इस से कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए । पर जब अन्यजाति और यहूदी उन का अपमान और उन्हें पत्थरबाह करने को अपने सरदारों समेत उन पर दीड़े । तो वे जान गए और लुकाउनिया के लुक्का और दिरबे नगरों में और आसपास के देश में भाग गए । और वहां सुसमाचार सुनाने लगे ॥

लुक्का में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था ।

९ वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इस ने उस की ओर टकटकी लगाकर देखा कि इस को चंगे हो  
 १० जाने का विश्वास है । और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो । तब वह उछलकर चलने  
 ११ फिरने लगा । लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा देवता मनुष्यों  
 १२ के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं । और उन्होंने ने बरनबा के ड्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा क्योंकि  
 १३ यह बातें करने में मुख्य था । और ड्यूस के उस मन्दिर का पुजारी जो उन के नगर के सामने था बैल और फूलों  
 १४ का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान किया चाहता था । पर बरनबा और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े भाड़े और भीड़ में लपक गए और  
 १५ पुकारकर, कहने लगे हे लोगों क्या करते हो हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग  
 १६ होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो जिस ने स्वर्ग और पृथिवी और समुद्र और जो कुछ उन में है बनाया ।  
 १७ उस ने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया । तभी उस ने अपने आप को बिना गवाही नहीं छोड़ा कि वह भलाई करता रहा  
 १८ और आकाश से वर्षा और फलवन्त ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनन्द से भरता रहा । यह कहकर उन्होंने ने लोगों को कठिनता से रोका कि उन के लिये बलिदान न करें ॥  
 १९ पर कितने यहूदियों ने अन्ताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों का अपना आंर कर लिया और पौलुस को पत्थरबाह किया और मरा समझकर उसे नगर के  
 २० बाहर घसीट ले गए । पर जब चले उस के चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे  
 २१ दिन बरनबा के साथ दरबे को चला गया । और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चले बनाकर लुका और इकुनियुम और अन्ताकिया  
 २२ को लौट आए । और चेलों के मन को स्थिर करते और यह उद्देश देते थे कि विश्वास में बने रहो और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य  
 २३ में प्रवेश करना होगा । और उन्होंने ने हर एक मण्डली में उन के लिये प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने ने  
 २४ विश्वास किया था । और पिसिदिया से होते हुए वे

पंफूलिया में पहुंचे । और पिरगा में वचन सुनाकर अन्त- २५ लिया में आए । और वहां से जहाज पर अन्ताकिया में २६ आए जहां से वे उस काम के लिये जो उन्होंने ने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपे गए थे । वहां २७ पहुंचकर उन्होंने ने मण्डली इकट्टी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्यजातियों के लिये विश्वास का द्वार खोल दिया । और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे ॥ २८

## १५ कितने लोग यहूदिया से आकर

भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते । जब पौलुस और बरनबा का २ उन से बहुत झगड़ा और पूछपाछ हुई तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबा और हम में से कितने और जन इस बात के विषय यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं । सो मण्डली ने उन्हें कुछ दूर ३ पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्यजातियों के मन फेरने का समाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनन्दित किया । जब यरूशलेम ४ में पहुंचे तो मण्डली और प्रेरित और प्राचीन उन से आनन्द के साथ मिले और उन्होंने ने बताया कि परमेश्वर ने उस के साथ होकर कैसे कैसे काम किये थे । पर फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उन में से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए ॥ तब प्रेरित और प्राचीन इस बात का विचार करने ६ को इकट्टे हुए । जब बहुत पूछपाछ हुई तो पतरस ने ७ खड़े होकर उन से कहा ॥

हे भाइयो तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्यजाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें । और मन के जांचनेवाले परमेश्वर ने उन को भी हमारी ८ नाई पवित्र आत्मा देकर उन को गवाही दी । और ९ विश्वास के द्वारा उन के मन शुद्ध करके हम में और उन में कुछ भेद न रक्खा । सो अब तुम क्यों परमेश्वर १० की परीक्षा करते हो कि चेलों की गरदन पर ऐसा जूआ रक्खो जिसे न हमारे बाप दादे न हम उठा सके । हां ११ हमारा यह विश्वास तो है कि जिस रीति से वे उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी प्रभु यीशु के अनुग्रह से पाएंगे ॥

- १२ तब सारी संभा चुपचाप होकर बरनबा और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उन के द्वारा अन्यजातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम
- १३ दिखाए । जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा कि ॥
- १४ हे भाइयो मेरी सुनो । शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहिले पहिल अन्यजातियों पर कैसी कृपादृष्टि की कि उन में से अपने नाम के लिये एक
- १५ लोग बना ले । और इस से नबियों की बातें मिलती
- १६ हैं जैसा लिखा है कि, इस के पीछे मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उस के खंडहरों के फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा ।
- १७ इसलिये कि शेष मनुष्य अर्थात् सब अन्यजाति
- १८ जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु के होंगे । यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों को
- १९ जनाता आया । इसलिये मेरा विचार यह है कि अन्यजातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते
- २० हैं हम उन्हें दुख न दें । पर उन्हें लिख भेजें कि वे मूरतों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे
- २१ हुआ के मांस से और लोहू से परे रहें । क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करनेवाले होते चले आए हैं और वह हर विश्राम के दिन समाओं में पढ़ी जाती है ॥
- २२ तब सारी मण्डली सहित प्रेरितों और प्राचीनों<sup>१</sup> का अच्छा लगा कि अपने में से कई मनुष्यों को चुनें अर्थात् यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सीलास का जो भाइयों में मुखिया थे और उन्हें पौलुस और
- २३ बरनबा के साथ अन्ताकिया को भेजें । और उन के हाथ यह लिख भेजा कि अन्ताकिया और सूरिया और किलिकिया के रहनेवाले भाइयों को जो अन्यजातियों में से हैं प्रेरितों और प्राचीनों<sup>२</sup> भाइयों का नमस्कार ।
- २४ हम ने सुना है कि कितनों ने हम में से वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए पर हम ने उन को आज्ञा न दी थी ।
- २५ इसलिये हम ने एक चिन्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्यारे बरनबा और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें । ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने ने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिये जोखिम में डाले हैं । और हम ने यहूदा और सीलास को भेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे ।
- २८ पवित्र आत्मा को और हम को ठीक जान पड़ा कि इन अवश्य बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें,

(१) या । प्रिसबुतियों ।

कि मूरतों के बलि किए हुआ से और लोहू से और २९ गलाघोंटे हुआ के मांस से और व्यभिचार से परे रहे । इन से परे रहो तो तुम्हारा भला होगा । आगे शुभ ॥

सो वे बिदा होकर अन्ताकिया में पहुंचे और ३० सभा को इकट्ठी करके वह पत्र दी । वे पढ़ के उस ३१ उपदेश की बात से आनन्दित हुए । और यहूदा और ३२ सीलास ने जो आप भी नबी यं बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया । वे कुछ दिन रहकर ३३ भाइयों से शान्ति के साथ बिदा हुए कि अपने भेजने-वालों के पास जाएं । और पौलुस और बरनबा ३४ अन्ताकिया में रह गए और बहुत औरों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे ।

कुछ दिन पीछे पौलुस ने बरनबा से कहा कि ३६ जिन जिन नगरों में हम ने प्रभु का वचन सुनाया था आओ फिर उन में चलकर अपने भाइयों को देखें कि कैसे हैं । तब बरनबा ने यहूदा को जो मरकुस ३७ कहलाता है साथ लेने का विचार किया ॥ पर पौलुस ३८ ने उसे जो पंफूलिया में उन से अलग हो गया था और काम पर उन के साथ न गया साथ ले जाना अच्छा न समझा । सो ऐसा टंटा हुआ कि वे एक दूसरे ३९ से अलग हो गए और बरनबा मरकुस को लेकर जहाज़ पर कुप्रुस को चला गया । पर पौलुस ने सीलास को ४० चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सोपा जाकर वहां से चला गया । और मण्डलियों को ४१ स्थिर करता हुआ सूरिया और किलिकिया से होते हुए निकला ॥

१६. फिर वह दिरवे और लुब्बा में भी गया और देखो वहाँ तीमथियुस नाम एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था पर उस का पिता यूनानी था । वह लुब्बा और इकुनियुम २ के भाइयों में सुनाम था । पौलुस ने चाहा कि यह मेरे ३ साथ चले और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उन के कारण उसे लेकर उस का खतना किया क्योंकि वे सब जानते थे कि उस का पिता यूनानी था । और नगर ४ नगर जाते हुए वे उन बिधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों<sup>२</sup> ने ठहराई थी मानने के लिये उन्हें पहुंचाते थे । सो मण्डलियां विश्वास में स्थिर होतीं ५ और गिनती में दिन दिन बढ़ती गईं ॥

(२) या । प्रिसबुतियां ।

- ६ और वे फ्रुगिया और गलतिया देशों में होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें आसिया में वचन सुनाने से मना किया । और उन्होंने ने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा पर यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया । सो मूसिया से होकर वे त्रोआस में आए । और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उस से बिनती करके कहता है कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर । उस के यह दर्शन देखते ही हम ने तुरन्त मकिदुनिया जाना चाहा यह समझ कर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिये बुलाया है ॥
- ११ सो त्रोआस से जहाज़ खोलकर हम सीधे समुद्राके १२ और दूसरे दिन नियापुलिस में आए । वहां से हम फिलिप्पी में पहुंचे जो मकिदुनिया प्रान्त का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है और हम उस नगर में कुछ १३ दिन रहे । विश्राम के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने की जगह होगी और बैठकर उन स्त्रियों से जो १४ इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे । और लुदिया नाम थूआथीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचनेवाली एक भक्त स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उस का मन खोला कि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए । और जब उस ने अपने घराने समेत बर्पतिसमा लिया तो उस ने बिनती की कि यदि तू मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो और वह हमें मनाकर ले गई ॥
- १६ जब हम प्रार्थना करने का जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिस में भावी कहनेवाला आत्मा था और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिये बहुत १७ कुछ कमा लाती थी । वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिह्नाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं । १८ वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही पर पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेरकर उस आत्मा से कहा मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उस में से निकल जा और वह उसी घड़ी निकल गया ॥
- १९ जब उस के स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आज्ञा जाती रही तो पौलुस और सीलास को २० पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए । और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी खलबली २१ डाल रहे हैं । और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें महण्य

करना या मानना हम रोमियों के लिये ठीक नहीं । तब २२ भीड़ के लोग उन के विरोध में हकट्टे चढ़ आए और हाकिमों ने उन के कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी । और बहुत बेत लगवाकर २३ उन्हें जेलखाने में डाला और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखले । उस ने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें २४ भीतर की कोठरी में डाला और उन के पांच काठ में ठोक दिये । आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास २५ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बन्धुए उन की सुन रहे थे, कि इतने में एकाएक बड़ा २६ भुईंड़ोल हुआ यहां तक कि जेलखाने की नेव हिल गई और तुरन्त सब द्वार खुल गए और सब के बन्धन खुल पड़े । और दारोगा जाग उठा और जेलखाने के द्वार २७ खुले देखकर समझा कि बन्धुए भाग गए सो तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा । पर २८ पौलुस ने उंचे शब्द से पुकारकर कहा अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यहां हैं । तब वह २९ दिया मंगाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा । और उन्हें बाहर ३० लाकर कहा हे साहिबो उद्धार पाने के लिये मैं क्या करूं । उन्होंने ने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ३१ तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा । और उन्होंने ने उस ३२ को और उस के सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया । और रात को उसी घड़ी उस ने उन्हें ले जाकर ३३ उन के धाव धोए और उस ने अपने सब लोगों समेत तुरन्त बर्पतिसमा लिया । और उस ने उन्हें अपने घर में ३४ ले जाकर उन के आगे भोजन रखवा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनन्द किया ॥

विहान हुए हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा ३५ कि उन मनुष्यों को छोड़ दो । दारोगा ने ये बातें पौलुस ३६ से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है सो अब निकलकर कुशल से चले जाओ । पर पौलुस ने उन से कहा उन्होंने ने हमें जो रोमी मनुष्य ३७ हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और जेलखाने में डाला और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं । सो नहीं पर आप आकर हमें बाहर ले जाएं । प्यादों ने ३८ ये बातें हाकिमों से कह दीं और वे यह सुनकर कि रोमी हैं डर गए । और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले ३९ जाकर बिनती की कि नगर से चले जाएं । वे जेलखाने ४० से निकलकर लुदिया के यहां गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए ॥

१७. फिर वे अंफिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए जहां यहूदियों की सभा थी । और पौलुस अपनी रीत पर उन के पास गया और तीन विश्राम के दिन पवित्र शास्त्रों से उन के साथ विवाद किया । और उन का अर्थ खोल खोलकर समझाता था कि मसीह के दुख उठाना और मरे हुआ में से जी उठना अनर्थ था और यही यीशु जिस की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है । उन में से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए । पर यहूदियों ने डाह से भर कर बाज़ारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर नगर में हल्लाड़ मचाने लगे और यासेन के घर पर चढ़ाई करके उन को लोगों के सामने लाना चाहा । और उन्हें न पाकर वे यह चिन्ताते हुए यासेन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उलटा पुलटा कर दिया है यहां भी आए हैं । और यासेन ने उन्हें अपने यहां उतारा है और वे सब के सब यह कहते हुए कि यीशु नाम दूसरा राजा है कैसर की आज्ञाओं का सामना करते हैं । सो उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर खबरा दिया । और उन्होंने यासेन और बाक्री लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया ॥

१० भाइयों ने तुरन्त रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया । और वे वहां पहुंच कर यहूदियों की सभा में गए । ये लोग तो थिस्सलुनीकेवालों से उदार थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और दिन दिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें योही हैं कि नहीं । सो उन में से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास किया । पर जय थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है तो वहां भी आकर लोगों को उसकाने और खलबली डालने लगे । तब भाइयों ने तुरन्त पौलुस को बिदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए पर सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गये । पौलुस के पहुंचानेवाले उसे अथेने तक ले गए और सीलास और तीमुथियुस के लिये यह आज्ञा लेकर बिदा हुए कि मेरे पास बहुत शीघ्र आओ ॥

१६ जब पौलुस अथेने में उन की बाट जोह रहा था तो नगर को मूरतों से भरा हुआ देखकर उस का जी जल गया । सो वह सभा में यहूदियों और भक्तों

से और चौक में जो लोग मिलते थे उन से हर दिन विवाद किया करता था । तब इपिकुरी और स्तोईकी परिदृष्टियों में से कितने उस से तर्क करने लगे और कितनों ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है पर औरों ने कहा वह ऊररी देवताओं का प्रचारक देख पड़ता है क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था । तब वे उसे अपने साथ अरियु-पगुम पर ले गए और पूछा क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है । क्योंकि तू अनेखी बातें हमें सुनाता है सो हम जानना चाहते हैं कि इन का अर्थ क्या है । (इसलिये कि सब अथेनवी और परदेशी जा वहां रहते थे नई नई बातें कहना सुनना छंदाड़ और किसी काम में समय न बिताते थे) । तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगो मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े माननेवाले हो । क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देखता था तब एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिये । सो जिसे तुम बिन जाने पूजते हो मैं तुम्हें उसी की कथा सुनाता हूं । जिस परमेश्वर ने जगत और उस की सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथिवी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मन्दिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेना है क्योंकि वह तो आप ही सब को जीवन और स्वास और सब कृप्य देता है । उस ने एक ही से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिये बनाई हैं और उन के ठहराए हुए मन्थ और निवास के मिवानों को इसलिये बांभा है । कि वे परमेश्वर को दूढ़ें क्या जाने उसे टटोलकर पाएं तौर्भा वह हम में से किसी से दूर नहीं । क्योंकि हम उसी में जीत और चलते फिरते और बने रहते हैं जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उस के वंश हैं । सो परमेश्वर के वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों । इसलिये परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने का आज्ञा देता है । क्योंकि उस ने एक दिन ठहराया है जिस में वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उस ने ठहराया है और उसे मरे हुआ में से जिलाकर यह बात सब को निश्चय करा दी है ॥

(१) या । मृतकोत्थान । अर्थात् जी उठने ।

३२ मरे हुआओं के पुनरुत्थान<sup>१</sup> की बात सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे और कितनों ने कहा यह बात  
 ३३ हम तुझ से फिर कभी सुनेंगे । इस पर पौलुस  
 ३४ उन के बीच में से निकल गया । पर कई मनुष्य उस से मिल गए और विश्वास किया जिन में दियु-  
 नसियुस अरियुपगी था और दमरिस नाम एक स्त्री थी और उन के साथ और भी कितने लोग थे ॥

२ १८. इस के पीछे पौलुस अथेने के छोड़कर  
 ३ कुरिन्थुम में आया । और वहां अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिस का जन्म पुन्तुस का था और अपनी पत्नी प्रिसकिल्ला समेत इतालिया से नया आया था इसलिये कि प्रौदियुम ने सब यहू-  
 ३ दियों के रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी सो वह उन के यहां गया । और उस का और उन का एक ही उद्यम था इसलिये वह उन के साथ रहा और वे काम  
 ४ करने लगे और उन का उद्यम तम्बू बनाने का था । और वह हर एक विश्राम के दिन सभा में विवाद करके यहू-  
 दियों और यूनानियों के भी समझाता था ॥

५ जब सीलास और तीमथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को  
 ६ गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है । पर जब वे विरोध और निन्दा करने लगे तो उस ने अपने कपड़े  
 भाड़कर उन से कहा तुम्हारा लोह तुम्हारे ही सिर पर रहे । मैं निर्दोष हूं । अब से मैं अन्य जातियों के पास  
 ७ जाऊंगा । और वहां से चलकर यह तिनुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया जिस का घर  
 ८ सभा के घर से लगा हुआ था । तब सभा के सरदार क्रिसपुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास करते और  
 ९ अपतिसमा लेते थे । और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर बरन करे जा और चुप मत  
 १० रह । क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके हानि न करेगा क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से  
 ११ लोग हैं । सो वह उन में परमेश्वर का वचन सिखाते हुए डेढ़ बरस रहा ॥

१२ जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम<sup>२</sup> था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आये और उसे  
 १३ न्याय के आसन के सामने लाकर कहने लगे कि, यह लोगों के समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी

(१) या । मृतकोत्थान अर्थात् जी उठने ।

(२) या । प्रतिनिधि ।

रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है । जब पौलुस मुंह १४ खोलने पर था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा हे यहू-  
 दियो यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सहता । पर यदि यह विवाद १५ शब्दों और नामों और तुम्हारे यहां की व्यवस्था के विषय है तो तुम ही जानो क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी बनना नहीं चाहता । और उस ने उन्हें न्याय के आसन १६ के सामने से निकलवा दिया । तब सब लोगों ने सभा १७ के सरदार सेस्थिनेस को पकड़ के न्याय के आसन के सामने मारा और गल्लियो ने इन बातों की कुछ चिन्ता न की ॥

पौलुस और भी बहुत दिन वहां रहा फिर भाइयों १८ से विदा होकर किंखिया में इसलिये सिर मुरझा कर कि उस ने मन्नत मानी थी जहाज़ पर सूरिया को चल दिया और उस के साथ प्रिसकिल्ला और अक्विला थे । और उस ने इफिसुस में पहुंचकर उन को वहां छोड़ा १९ और आप ही सभा में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा । जब उन्होंने उस से बिना की कि हमारे साथ २० और कुछ दिन रह तो उस ने न माना । पर यह कहकर २१ उन से विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा । तब इफिसुस से जहाज़ खोलकर चल २२ दिया और कैसरिया में उतर कर [यरूशलेम को] गया और मण्डली को नमस्कार करके अन्ताकिया में आया । फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला गया और एक ओर से २३ गलतिया और फ्रूगिया में सब चेलों को स्थिर करता फिरा ॥

अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिस का जन्म सिक- २४ न्दरिया में हुआ था जो विद्वान् पुरुष और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था इफिसुस में आया । उस २५ ने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और जी लगा कर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था पर वह केवल यहूदा के अपतिसमा की बात जानता था । वह सभा में निडर होकर बोलने लगा पर प्रिसकिल्ला और २६ अक्विला उस की बातें सुन कर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उस को और भी ठीक ठीक बताया । और जब वह अखाया को पार उतरकर जाना २७ चाहता था तो भाइयों ने उसे ढाढस देकर चेलों को लिखा कि वे उस से अच्छी तरह मिलें और उस ने पहुंच कर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्हो ने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था । क्योंकि वह पवित्र शास्त्र २८ से यह प्रमाण ला लाकर कि यीशु ही मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के सामने निरुत्तर करता रहा ॥



१६. और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर २ इफिसुस में आया और कितने चेलों को पाकर, उन से कहा क्या तुम ने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया । उन्होंने ने उस से कहा हम ने तो पवित्र आत्मा की ३ चर्चा भी नहीं सुनी । उस ने उन से कहा तो तुम ने किस का बपतिसमा लिया । उन्होंने ने कहा यूहन्ना का ४ बपतिसमा । पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिसमा दिया कि जो मेरे पीछे आनेवाला ५ है उस पर अर्थान् यीशु पर विश्वास करना । यह सुनकर ६ उन्होंने ने प्रभु यीशु के नाम का बपतिसमा लिया । और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे बोलियां बोलने और नबूवत करने ७ लगे । ये सब बारह एक पुरुष थे ॥

८ और वह सभा में जाकर तीन महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय ९ विवाद करता और समझाता रहा । पर जब कितनों ने कठोर होकर उस की नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे तो उस ने उन को लौड़कर चेलों को अलग कर लिया और दिन दिन तुरन्नुस की १० पाठशाला में विवाद किया करता था । दो बस तक यही होता रहा यहां तक कि आसिया के रहनेवाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया । ११ और परमेश्वर पौलुस के हाथों से अनोखे सामर्थ के १२ काम दिखाता था, यहां तक कि उस की देह से छुवा कर रूमाल और अंगोछे बीमारों पर डालते थे और उन की बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्टात्मा उन में से १३ निकल जाते थे । पर कितने यहूदी जो भाड़ा फंकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिन में दुष्टात्मा हैं उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कह कर फूंकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की किरिया देता १४ हूं । और स्किवा नाम एक यहूदी महायाजक के सात १५ पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे । पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस को भी पहचानता १६ हूं पर तुम कौन हो । और उस मनुष्य ने जिस में दुष्ट आत्मा था उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर १७ उस घर से निकल भागे । और यह बात इफिसुस के रहनेवाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की १८ बड़ाई हुई । और जिन्होंने विश्वास किया था उन में से बहुतेरों ने आकर अपने अपने काम मान लिए और

वतलाए । और जादू करनेवालों में से बहुतों ने अपनी १९ अपनी पोथियां इकट्ठी करके सब के सामने जला दीं और जब उन का दाम जोड़ा गया तो पचास हजार रुपये की निकलीं । ये प्रभु का वचन बल पाकर फैलता और २० प्रबल होता गया ॥

जब ये बातें हो चुकीं तो पौलुस ने आत्मा २१ में ठाना कि मक्केदुनिया और अखाया से हांकर यरूशलेम को जाऊं और कहा कि वहां जाने के पीछे मुझे रोमा को भी देखना चाहिए । सो उस की सेवा करनेवालों २२ में से तीभुथियुस और इगस्तुस को मक्केदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया ॥

उस समय उस पन्थ के विषय बड़ा हुल्लड़ २३ हुआ । क्योंकि देमेत्रियुस नाम एक सुनार अरतिमिस २४ के मन्दिर की चांदा की मूर्तें बनाने से कारीगरों को बहुत काम दिलाता था । उस ने उन को और और ऐसी २५ वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठी करके कहा, हे मनुष्यों तुम जानते हो कि इस काम से हमारी कमाई होती है । और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस २६ ही में नहीं वरन प्रायः सारे आसिया में यह कह कह कर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ से बनाये जाते हैं वे ईश्वर नहीं । और २७ केवल यह डर नहीं कि हमारे उस धन्वे का मान जाता रहेगा वरन यह भी कि बड़ी देवी अरतिमिस का मन्दिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उस की प्रतिष्ठा जाती रहेगी । वे यह सुन कर २८ क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे इफिसियों की अरतिमिस महान् है । और सारे नगर में बड़ी २९ हलचल मच गई और लोगों ने गयुस और अरिस्तरखुस मक्केदुनियों को जो पौलुस के संगी यात्री थे पकड़ लिया और एक चित्त होकर रंगशाला में दौड़ गए । जब पौलुस ३० ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया । आसिया के हाकिमों में से भी उस के ३१ कई मित्रों ने उस के पाम कहला भेजा और बिनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिन न उठाना । सो ३२ कोई कुछ चिल्लाया और कोई कुछ क्योंकि सभा में गड़बड़ हो रही थी और बहुत लोग जानते भी न थे कि हम किस लिये इकट्ठी हुए हैं । तब उन्होंने ने सिकन्दर ३३ को जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था भीड़ में से आगे बढ़ाया और सिकन्दर हाथ से सैन करके लोगों के सामने उत्तर दिया चाहता था । पर जब उन्होंने ने जाना ३४ कि यह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई दो घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों की अरतिमिस

३५ महान् है । तब नगर के मन्त्री ने लोगों को शांत करके कहा है इफिसियो कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर बड़ी देवी अरांतमिस के मन्दिर और ज्यूस की ओर ३६ से गिरी हुई मूर्त का टहलुआ है । सो जब कि इन बातों का खण्डन नहीं हो सकता तो उचित है कि तुम चुपके ३७ रहो और बिना सोचे कुछ न करो । क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मन्दिर के लूटनेवाले और न हमारी ३८ देश के निन्दक हैं । यदि देमत्रियुस और उस के साथी कारागारों को किसी से विवाद हो तो कचहरों खुली हैं ३९ और दार्कम<sup>१</sup> भी हैं वे एक दूसरे पर नालिया करें । पर यदि तुम किसी और बात के विषय कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में कैगला किया जाएगा । क्योंकि ४० आज के बलब के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है इसलिये कि इस का कोई कारण नहीं तो हम ४१ इस भीड़ होने का उत्तर न दे सकेंगे । और यह कह के उस ने सभा को विदा किया ॥

**२०. जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों**

का बुलवाकर समझाया और उन

२ से विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया । उस सारं देश में होकर और उन्हें बहुत समझा कर वह ३ यूनान में आया । जब तीन महीने रह कर जहाज़ पर सूरया जाने पर था तो यहूदी उस की घात म लगे इसलिये उस ने मकिदुनिया होकर लौट जाने का ४ ठाना । विरिया के पुस्त का पुत्र सोपत्रुस और थिसलूनोंकीयो म से अरस्तखुस और सिकुनुस और दिरब का गयुम और तामुथयुन और आसिया का तुखिकुस और त्राफमुस आसिया तक उस के साथ हो लिए । ५ वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोइते रहे । ६ और हम अश्वमीरी रोटी के दिना के पीछे फिलिपी से जहाज़ पर चल कर पांच दिन में त्रोआस में उन के पास पहुंचे और सात दिन वहीं रहे ॥ ७ अठारह के पहिले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिये इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उन से बातें कीं और आधी रात तक बातें ८ करता रहा । जिस अठारी पर हम इकट्ठे थे उस में ९ बहुत दिये जल रहे थे । और यूनुखुस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ भारी नींद से झुक रहा था और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा वह नींद के भोके में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और मग हुआ उठाया

गया । पर पौलुस उतर कर उस में लिगट गया और १० गले लगाकर कहा न घराघो क्योंकि उस का प्राण उस में है । और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर ११ इतनी देर तक उन से बातें करता रहा कि पौ फट गई फिर वह चला गया । और वे उस लड़के को जीता १२ ले लाए और बहुत शान्ति पाई ॥

हम पहले से जहाज़ पर चढ़ कर अस्सुम को गए जहां से हमें पौलुस का चढ़ा लेना था क्योंकि उस १३ ने यह इसलिये टहराया था कि आप ही पैदल जानेवाला था । जब वह अस्सुम में हमें मिला तो १४ हम उसे चढ़ा कर मिनुलेने में आए । और वहां से १५ जहाज़ खोल कर हम दूसरे दिन खियुम के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में लगान किया फिर दूसरे दिन मीलेतुस में आए । क्योंकि पौलुस ने इफिसुम को १६ एक ओर छोड़कर जाने का ठाना था ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे क्योंकि वह जल्दी करता था कि यदि हो सके तो उसे पिन्तेकुस्त का दिन यरूशलेम में हो ॥

और उस ने मीलेतुस से इफिसुम में कहला १७ भेजा और मण्डली के प्राचीनों<sup>१</sup> को बुलवाया । जब १८ वे उस के पास आए तो उन से कहा,

तुम जानते हो कि पहिले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा मैं हर समय तुम्हारे साथ कैसा रहा । कि बड़ी दीनता से और अब वहा वहाकर १९ और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों की घात में लगे रहने से मुझ पर आ पड़ी मैं प्रभु की सेवा करता रहा । और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उन को २० बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न भिक्का । वरन यहूदियों और यूनानियों के २१ सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर का और मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए । और अब देखो मैं आत्मा में क्या २२ हुआ यरूशलेम जाता हूं और नहीं जानना कि वहां मुझ पर क्या क्या बातेंगा । केवल यह कि पवित्र आत्मा २३ हर नगर में गवाही दे देकर मुझ से कहता है कि बन्धन और क्लेश तरे लिये तैयार हैं । पर मैं अपने २४ प्राण को कुछ नहीं समझता कि मानो वह मुझे प्रिय है कि मैं अपनी दीड़ को और उस सेवकाई को पूरा कर्लूं जो मैं ने परमेश्वर के अनुग्रह के सुनमाचार पर गवाही देने को प्रभु यीशु से पाई है । और अब देखो २५ मैं जानता हूं कि तुम सब जिन में मैं परमेश्वर के

(१) या प्रतिनिधि ।

(२) देखो २ अध्याय ४२ पद ।

(३) या । प्रित्पुतित ।

राज्य का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर न देखोगे ।  
 २६ इसलिये मैं आज के दिन तुम से गवाही देकर  
 २७ कहता हूँ कि मैं सब के लोहू से निर्दोष हूँ । क्योंकि  
 मैं परमेश्वर की सारी मनसा तुम्हें पूरी रीति से बताने  
 २८ से न भिन्न हूँ, सो अग्नी और सार भुड की चौकसी  
 करो जिम में पावन आत्मा ने तुम्हें अध्वर्यु<sup>१</sup> ठहराया  
 है कि तुम परमेश्वर की कत्तीसया<sup>२</sup> रखवाली करो  
 २९ जिसे उस ने अपने लोहू से माल लिया है । मैं जानता  
 हूँ कि मेरे जाने के पीछे फाड़नेवाले भोड़िए तुम में  
 ३० आएंगे जो भुड का न छोड़ेंगे । तुम्हारे हाँ बाच मं  
 से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चलों का अपन पीछे खींच  
 ३१ लेने का टेड़ी बातें कहेंगे । इसलिये जागत रहा और  
 स्मरण करो कि मैं ने तीन बरस तक रात दिन आस  
 ३२ बहा बहाकर हर एक को चिताना न छोड़ा । और  
 अब मैं तुम्हें परमेश्वर के और उस के अनुग्रह के वचन  
 का सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता और  
 ३३ सब पवित्रों में साभी करके मीरास दे सकता है । मैं ने  
 किसी की चादी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया ।  
 ३४ तुम आप जानते हो कि इन ही हाथों ने मेरा और मेरे  
 ३५ साथियों की ज़रूरतें पूरी का । मैं ने तुम्हें सब करके  
 दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्भला को  
 सम्भालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना चाहिए  
 कि उस ने आप हाँ कहा है, लेने से देना धन्य है ॥  
 ३६ यह कहकर उस ने धुटन टेक और उन सब के  
 ३७ साथ प्रार्थना की । तब वे सब बहुत राए और पौलुस  
 ३८ के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे । वे विशेष करके  
 इस बात का शक करत थे जा उस ने कही थी कि तुम  
 मेरा मुंह फिर न देखोगे और उन्हाँ ने उसे जहाज़ तक  
 पहुँचाया ॥

**२९. जब हम ने उन से अलग होकर**

जहाज़ खाला तो सीधे सीधे  
 कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहाँ से  
 २ पतरा में । और एक जहाज़ फीनीके जाता हुआ मिला  
 ३ और उस पर चढ़कर उसे खोल दिया । जब कुपुस  
 दिखाई दिया तो हम ने उसे बाएँ हाथ छोड़ा और  
 सुरया का चलकर सूर में उतरे क्योंकि वहाँ जहाज़ का  
 ४ बाँध उतारना था । और चलों का पाकर हम वहाँ सात  
 दिन रहे । उन्हां ने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा  
 ५ यरूशलेम में पाँव न रखना । जब वे दिन पूरे हो गए  
 तो हम चल दिए और सब ने स्त्रियों और बालकों

समेत हमें नगर के बाहर तक पहुँचाया और हम ने  
 किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की । तब एक दूसरे ६  
 से विदा होकर हम तो जहाज़ पर चढ़े और वे अपने  
 अपने घर लौट गए ॥

तब हम सूर से जलयात्रा पूरी करके पतुलिमयिस ७  
 में पहुँचे और भाइयों को नमस्कार करके उन के साथ  
 एक दिन रहे । दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर कैसरिया ८  
 में आये और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में  
 जो सातों में एक था जाकर उस के यहाँ रहे । उस की ९  
 चार कुंवारी पुत्रियाँ थीं जो नभूवत करती थीं । जब हम १०  
 वहाँ बहुत दिन रहे चुके तो अगबुस नाम एक नबी  
 यहूदिया से आया । उस ने हमारे पास आकर पौलुस ११  
 का पटका लिया और अपने हाथ पाँव बाँधकर कहा  
 पवित्र आत्मा यह कहता है जिस मनुष्य का यह पटका  
 है उस का यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बाँधेंगे  
 और अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे । जब ये बातें सुनी १२  
 तो हम और वहाँ के लोगों ने उम से बिनगी की कि  
 यरूशलेम को न जाए । पर पौलुस ने उत्तर दिया कि १३  
 तुम क्या करते हो कि रो रोकर मेरा मन तोड़ते हो ।  
 मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिये यरूशलेम में न केवल  
 बाधे जाने ही के लिये बरन मरने के लिये भी तैयार  
 हूँ । जब उस ने न माना तो हम यह कहकर चुप हो १४  
 गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो ॥

उन दिनों के पीछे हम बाँध छोड़ कर यरूशलेम १५  
 को चल दिये । कैसरिया के भी कितने चले हम रं साथ १६  
 हो लिए और मनामोन नाम कुपुस के एक पुराने चले  
 का साथ ले आए कि हम उस के यहाँ टिकें ॥

जब हम यरूशलेम में पहुँचे तो भाई बड़े आनन्द १७  
 के साथ हम से मिले । दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर १८  
 याकूब के पास गया जहाँ सब प्राचीन<sup>१</sup> इकट्ठे थे । तब १९  
 उस ने उन्हां नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने  
 उस की सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक  
 एक करके बताया । उन्हां ने यह सुन कर परमेश्वर की २०  
 महिमा की फिर उस से कहा है भाई तू देखता है  
 कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और  
 सब व्यवस्था के लिये धुन लगाए हैं । और उन का २१  
 तरे विषय सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में  
 रहनेवाले यहूदियों का मूसा से फिर जाने का सिखाता  
 है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ  
 न रीतियों पर चलो । सो क्या किया जाए । लोग २२  
 अवश्य सुनेंगे कि तू आया है । इसलिये जो हम तुम्हें २३

से कहते हैं वह कर । हमारे यहां चार मनुष्य हैं जिन्हों  
 २४ ने मन्त्र मानी है । उन्हें लेकर उन के साथ अपने  
 आप को शुद्ध कर और उन के लिए खरचा दे कि वे  
 सिर मुड़ाए तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे  
 विषय सिखाई गईं उन की कुछ जड़ नहीं, पर तू  
 २५ आप भी व्यवस्था को मान कर उस के अनुसार चलता  
 है । पर उन अन्य जातियों के विषय जिन्होंने विश्वास  
 किया है हम ने यह ठहरा कर लिख भेजा कि वे मूर्तों  
 के सामने बलि किए हुए से और लोहू से और गला  
 २६ घांटे हुआ के मांस से और व्याभचार स बचे रहे । तब  
 पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उन के  
 साथ शुद्ध होकर मन्दिर में गया और बता दिया कि  
 शुद्ध होने के दिन अर्थात् उन में से हर एक के  
 लिये चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे ॥  
 २७ जब वे सात दिन पूरे होने पर वे तो आसिया के  
 यहूदियों ने पौलुस को मन्दिर में देख कर सब लोगों को  
 २८ उसकाया और जो चिन्ताकर उस का पकड़ लिया कि, हे  
 इस्राएलियों सहायता करा यह वहा मनुष्य है जो लोगों  
 के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर  
 जगह सब लोगों को सिखाता है यहां तक कि यूनानियों  
 का भी मन्दिर में लाकर उस ने इस पवित्र स्थान को  
 २९ अव्यक्त किया है । उन्होंने ने तो इस से पहिले त्रुफगुस  
 हाफसी को उस के साथ नगर में देखा था और सम्भ्रत  
 ३० थे कि पौलुस उसे मन्दिर में ले आया था । तब सार  
 नगर में हलचल पड़ गई और लोग दाड़कर इकट्ठे हुए  
 और पौलुस को पकड़कर मन्दिर के बाहर घसाट लाए  
 ३१ और तुरन्त द्वार बन्द किए गए । जब वे उसे भार  
 डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार का सन्देश  
 ३२ पहुंचा कि सारे यरूशलेम में हुल्लड़ मच रहा है । तब  
 वह तुरन्त सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उन के  
 पास नाचे दाड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार  
 को और सिपाहियों को देख कर पौलुस को पीटने से  
 ३३ हाथ उठाया । तब पलटन के सरदार ने पास आकर  
 उसे पकड़ लिया और दो जंजीरों से बांधने की आज्ञा  
 देकर पूछने लगा यह कौन है और इस ने क्या किया  
 ३४ है । पर भीड़ में कोई कुछ और कोई कुछ चिन्ताते थे  
 और जब हुल्लड़ के मारे ठीक न जान सका तो उसे  
 ३५ गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी । जब वह सीढ़ी पर  
 पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपा-  
 ३६ हियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा । क्योंकि लोगों की  
 भीड़ यह चिन्ताती हुई उस के पीछे पड़ी कि इस का  
 काम तमाम कर ॥

जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर वे तो उस ३७  
 ने पलटन के सरदार से कहा क्या तुम्ह से कुछ कह  
 सकता हूं । उस ने कहा क्या तू यूनानी जानता है ।  
 क्या तू वह मिसरी नहीं जो इन दिनों से पहिले बल- ३८  
 वाई बनाकर चार हजार कटार बंद लोगों को जङ्गल में  
 ले गया । पौलुस ने कहा मैं तो तरमुस का यहूदी ३९  
 मनुष्य हूं । किलिकिया के प्रतिद्ध नगर का निवासी हूं  
 और मैं तुम्ह से बिनती करता हूं कि मुझे लोगों से बातें ४०  
 करने दे । जब उस ने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर  
 खड़े होकर लोगों को हाथ से सैन किया । जब वे चुप  
 हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा कि,

२२. हे भाइयो और पितरो मेरा उज्जर जो  
 मैं अब तुम्हारे सामने करता हूं  
 सुनो ॥

वे यह सुन कर कि वह हम से इब्रानी भाषा २  
 में बोलता है और भी चुप रहे । तब उस ने कहा,  
 मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरमुस ३  
 में जन्मा पर इस नगर में गमलीएल के पावों  
 के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की  
 व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और  
 परमेश्वर के लिये ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब  
 आज लगाए हो । और मैं ने पुरुष और स्त्री दोनों का ४  
 बांध बांध कर और जेलखानों में डाल डाल कर इस पथ  
 को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला । इस ५  
 बात के महायाजक और सब पुरानिये गवाह हैं कि उन में  
 से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को  
 चला जा रहा था कि जो वहां हों उन्हें भी ताड़ना पाने  
 को बांधे हुए यरूशलेम में लाऊं । जब मैं चलते चलते ६  
 दमिश्क के निकट पहुंचा तो दोपहर के लगभग एका-  
 एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी । और ७  
 मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल  
 हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है । मैं ने उत्तर दिया कि  
 हे प्रभु तू कौन है । उस ने मुझ से कहा मैं यीशु नासरी ८  
 हूं जिसे तू सताता है । और मेरे साथियों ने ज्योति तो ९  
 देखी पर जो मुझ से बोलता था उस का शब्द न सुना ।  
 तब मैं ने कहा हे प्रभु मैं क्या करूं । प्रभु ने मुझ से १०  
 कहा उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तरे करने के  
 लिये ठहराया गया है वहा तुम्ह से सब कहा जायगा ।  
 जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे न सूझता था तो मैं ११  
 अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया ।

(१) यू० जो मुझ से कहता था ।

- १२ और हनन्याह नाम व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहनेवाले सब यहूदियों में सुनामी था मेरे पास आया । और खड़ा होकर मुझ से कहा हे भाई
- १३ शाऊल देखने लग और उसी घड़ी मैं ने उसे देखा । तब उस ने कहा हमारे बापदादा के परमेश्वर ने तुझे इस-लिये टहगाया है कि तू उस की इच्छा को जाने और उस धर्मों को देखे और उस के मुह से बातें सुने । क्योंकि तू उस की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तू ने देखी और सुनी हैं । अब क्यों तेर करता है । उठ वपतिसमा ले और उस का नाम लेकर
- १६ अपने पागों को धो डाल । जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मन्दिर में प्रार्थना कर रहा था तो वेसुध हो गया । और उस को देखा कि मुझ से कहता है जल्दी करके यरूशलेम से भट निकल जा क्योंकि वे मेरे विषय के तेरी गवाही न मानेंगे । मैं ने कहा हे प्रभु वे तो आप जानत हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करनेवालों को जेल-खाने में डालता और जगह जगह सभा में पिटवाता था । और जब तेरे गवाह स्तिफानुस का लोहू वहाया जाता था तो मैं भी वहां खड़ा था और सम्मत था और उस के घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था । और उस ने मुझ से कहा चला जा क्योंकि मैं तुझे अन्य-जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा ॥
- २२ वे इस बात तक उस को सुनते रहे तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का काम तमाम कर उस का जीता रहना उचित नहीं । जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाने थे । तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि गड़ में ले जाओ और काड़े मार कर जांचो कि मैं जानू कि लोग किस कारण उस के विरोध में ऐसा चिल्लाते हैं । जब उन्होंने ने उसे तसमों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दापी टहराए हुए काड़े मारो । सूबेदार ने यह सुन कर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा तू क्या कया चाहता है यह तो रोमी मनुष्य है । तब पलटन के सरदार ने उस के पास आकर कहा मुझे बता क्या तू रोमी है । उस ने कहा हां । यह सुन कर पलटन के सरदार ने कहा कि मैं ने रोमी होने का पद बहुत रुच्ये देकर पाया है । पौलुस ने कहा मैं तो जन्म से हूँ । तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरन्त उस के पास से हट गए और पलटन का सरदार भी यह जान कर कि यह रोमी है और मैं ने उसे बांधा है डर गया ॥
- ३० दूसरे दिन वह ढोक ढोक जानने की इच्छा से कि

यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं उस के बंधन खोल दिए और महायाजकों और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उन के सामने खड़ा किया ॥

२३. पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगा कर कहा हे भाइयो मैं

ने इस दिन तक परमेश्वर के लिये बिजकुल सब विवेक से जीवन बिताया है । हनन्याह महायाजक ने उन को जो उस के पास खड़े थे उस के मुह पर थपड़ मारने की आज्ञा दी । तब पौलुस ने उस से कहा हे चूना फेरी हुई भीत परमेश्वर तुझे मारेगा । तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देना है । जो पास खड़े थे उन्होंने ने कहा क्या तू परमेश्वर के महायाजक को युग कहता है । पौलुस ने कहा हे भाइयो मैं न जानता था कि यह महायाजक है क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कह । तब पौलुस ने यह जान कर कि कितने सद्की और कितने फरीसी हैं सभा में पुकार कर कहा हे भाइयो मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ मेरे हुओं की आज्ञा और पुनरुत्थान के विषय मेरा मुकद्दमा हो रहा है । जब उस ने यह बात कही तो फरीसियों और सद्कों में भगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ी । सद्की तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान न स्वर्गदूत और न आत्मा है पर फरीसी दोनों मानते हैं । तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यहां कह कर भगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुल बुराई नहीं पाते और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उस से धोला है तो क्या । जब बहुत भगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें पलटन को आज्ञा दी कि उतर कर उस को उन के बीच में से बर-वस निकालो और गड़ में लाओ ॥

उसी रात प्रभु ने उस के पास आ खड़े होकर कहा हे पौलुस दाहस बांध क्योंकि जैसी तू ने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी ॥

जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाए या पीएं तो हम पर धिक्कार । जिन्होंने आपस में यह किरिया खाई थी वे चालीस जनों के ऊपर थे । उन्होंने ने महा-

(१) अर्थात् मन । या कांशस ।

(२) या । गृत्कोस्थान ।

याजकों और पुरनियों के पास आकर कहा हम ने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ चले भी तो हम पर धिक्कार पर धिक्कार ।

१५ इसलिये अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए मानो तुम उस के विषय और भी टोक जांच करना चाहते हो और हम उस के पहुंचने से पहिले ही उसे मार डालने के तैयार रहेंगे । और पौलुस के भांजे ने मुना कि वे उस की घात में हैं और गढ़ में जाकर पौलुस को सन्देश दिया ।

१७ पौलुस ने सूत्रधारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा इस जवान को, पलटन के सरदार के पास ले जा यह उस से कुछ कहना चाहता है । मेा उस ने पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा पौलुस बंधुए ने मुझे बुना कर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है उसे उन के पास ले जा । पलटन के सरदार ने उस का हाथ पकड़ कर और अलग ले जाकर पूछा मुझ से क्या कहना चाहता है । उन ने कहा यहूदियों ने एका किया है कि तुझ से विनती करें कि कल पौलुस को महामभा में लाए मानो तू और टोक जांच करना चाहता है । पर उन की न मानना क्योंकि उन में से चालीस से ऊपर मनुष्य उस की घात में हैं जिन्होंने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न लें तब तक खाएँ पाएँ तो हम पर धिक्कार और अब वे तैयार हैं और तेरे वचन की आस देख रहे हैं । सो पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर बिगा किया कि किसी से न कहना कि तू ने मुझ को ये बातें बताईं । और दो सूत्रधारों को बुनाकर कहा दो सौ मिगारी सत्तर सवार और दो सौ भालैत पहर रात बीने कैसरिया को जाने के लिये तैयार कर रक्वो । और पौलुस की सवारों के लिये घोड़े तैयार रक्वो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें । उस ने इस प्रकार की चिट्ठा भी लिखी,

२६ महाप्रतापी फेलिक्स हाकिम को ब्रोदियुस लूसियास का नमस्कार । इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़ कर मार डालना चाहा पर जब मैं ने जाना कि रामी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया । और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किम कारण दोष लगाते हैं इस लिये उसे उन की महासभा में ले गया । तब मैं ने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विगारों के विषय उस पर दोष लगाते हैं पर मार डाले जाने या बाधे जान के योग्य उस में कोई दोष नहीं । और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगेंगे तो मैं ने तुरन्त उस को

तेरे पास भेज दिया और यहूदियों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिया करें ॥

सो जैसे सिगाहियों को आज्ञा दी गई थी वैसे ही ३१ पौलुस को लेकर रातों रात अन्तित्रिम में लार । दूनरे ३२ दिन वे सवारों को उस के साथ जाने के लिये छोड़कर आप गढ़ को लौटे । उन्होंने ने कैसरिया में पहुंच कर ३३ हाकिम को चिट्ठा दी और पौलुस को भी उस के सामने खड़ा किया । उस ने पढ़कर पूछा यह किस देश का है और जब जाना कि किलकिया का है, तो उस से कहा जब तेरे यहूई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकहमा करूंगा और उस ने उसे हेरोदेस के किले में पहरें में रखने की आज्ञा दी ॥

## २४. पांच दिन के पीछे हमन्नाह महा-याजक कितने पुरनियों और

तिरतुल्लुन नाम किसी वधिल को साथ लेकर आया और उन्होंने ने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिया की । जब वह बुनाया गया तो तिरतुल्लुन उस पर दोष ल कर कहने लगा कि,

हे महाप्रतापी फेलिक्स तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबन्ध से इस जाति के लिये कितनी बुराइयां मुधरती जाती हैं । इस को हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं । पर इसलिये कि तुझे और दुःख नहीं देना चाहता मैं तुझ से विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले । क्योंकि हम ने इस मनुष्य को बंधेड़िया और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करानेवाला और नानरियों के कुन्ध का मुखिया पाया । उन ने मन्दिर को अशुद्ध करना चाहा और हम ने उसे पकड़ा । इन सब बातों का जिन के विषय हम उस पर दोष लगाते हैं तू आप ही उसी को जांच कर जान सकेगा । यहूदियों ने भी उस का साथ देकर कहा ये बातें सही हैं ॥

जब हाकिम ने पौलुस को दोषने की सैन की तो १० उस ने उत्तर दिया,

मैं यह जान कर कि तू बहुत बरसों से इस जाति का न्याय करता है आनन्द से अपना उजर करता हूँ । तू आप जान सकता है कि जब से मैं बरुशलेम में भजन करने को आया मुझे बागह दिन से ऊपर नहीं हुए । और उन्होंने ने मुझे न मन्दिर में न सभा के घरों में न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया । और न वे उन बातों का जिन का वे अब मुझ

१४ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं । पर यह मैं तेरे सामने मान लेता हूँ कि जिस पन्थ को वे कुपन्थ कहने हैं उमी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ और जो बातें व्यवस्था और नबियों की पुस्तक में लिखी हैं उन सब की प्रतीति करता हूँ । और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो आप भी रखते हैं कि धर्मों और अधर्मों दोनों का जी उठना होगा । इस से मैं आप भी यतन करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे । बहुत बरसों के पीछे मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने और भेंट चढ़ाने आया था । इस में उन्होंने मुझे मन्दिर में शुद्ध किए हुए न भीड़ के साथ और न दंगा करते हुए पाया—हां, आर्मिया के कई यहूदी थे—उन को उचित था कि यदि मेरे विरोध में उन की कोई बात हो तो यहां तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाने । या ये आप ही कहें कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया, इस एक बात को छोड़ जो मैं ने उन के बीच में खड़े हो पुकार कर कहा था कि मरे हुआओं के जी उठने के विषय आज मेरा तुम्हारे सामने मुकद्दमा हो रहा है ॥

२२ फेलिक्स ने जो इस पन्थ की बातें ठीक ठीक जानता था उन्हें यह कह कर टाल दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियाम आएगा तो तुम्हारी बात का फैसला करूंगा । और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को सुख से रख कर रखवाली करना और उस के मित्रों में से किसी को उस की सेवा करने से न रोकना ॥

२४ कितने दिनों के पीछे फेलिक्स अपनी पत्नी दुसिल्ला को जो यहूदिनी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवा कर उस विश्वास के विषय जो मसीह यीशु पर है उस से मुना । और जब वह धर्म और सयम और आनेवाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा अवसर पाकर मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा । उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की भी आस थी इसलिये और भी बुला बुलाकर उस से बातें किया करता था । पर जब दो बरस बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बन्धुआ छोड़ गया ॥

(१) अर्थात् मन । या कांशंस ।

(२) या । धर्म ।

## २५. फेस्तुस उस प्रान्त में पहुँच कर तीन दिन के पीछे कैस-

रिया से यरूशलेम को गया । तब महायाजकों ने और यहूदियों के बड़े लोगों ने उस के सामने पौलुस की नालिश की । और उस से बिनती कर उस के विरोध में बर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात लगाए हुए थे । फेस्तुस ने उत्तर दिया कि पौलुस कैसरिया में पहले में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा । फिर कहा तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित किया तो उस पर दोष लगाएँ ॥

और उन के बीच कोई आठ दस दिन रहकर वह कैसरिया गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस के लाने की आज्ञा दी । जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आस पास खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोष लगाए जिन का प्रमाण वे न दे सकने थे । पर पौलुस ने उत्तर दिया कि मैं ने न तो यहूदियों की व्यवस्था का न मन्दिर का और न कैसर का कुछ अपराध किया है । तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर दिया क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकद्दमा फैसल हो । पौलुस ने कहा मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ मेरा मुकद्दमा यहीं फैसल होना चाहिए । जैसा तू अच्छी तरह जानता है यहूदियों का मैं ने कुछ अपराध नहीं किया । यदि अपराधी हूँ और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता पर जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं यदि उन में से कोई बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उन के हाथ नहीं सौंप सकता । मैं कैसर की दोहाई देता हूँ । तब फेस्तुस ने मन्त्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया तू ने कैसर की दोहाई दी है तू कैसर के पास जाएगा ॥

जब कितने दिन बात गए तो अग्रिप्पा राजा और गिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की । और उन के बहुत दिन वहां रहने के पीछे फेस्तुस ने पौलुस की कथा राजा को बताई कि एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंधुआ छोड़ गया है । जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजक और यहूदियों के पुरनियों ने उस की नालिश की और चाहा कि उस पर दण्ड की आज्ञा दी जाए । पर मैं ने उन को उत्तर दिया रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दण्ड के लिये सौंप दें जब तक

- मुद्गाश्लैह को अपने मुद्गियों के आमने सामने होकर  
 १७ दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले । सो जब वे यहां  
 इकट्ठे हुए तो मैं ने कुछ देर न की पर दूसरे ही दिन  
 न्याय-आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा  
 १८ दी । जब उस के मुद्गई खड़े हुए तो ऐसी बुरी बातों  
 १९ का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था । पर अपने  
 मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय विवाद  
 करते थे जो मर गया था और पौलुस उस को जीता  
 २० बताता था । और मैं उलझन में था कि इन बातों का  
 पता कैसे लगाऊँ इसलिये मैं ने उस से पूछा क्या तू  
 यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो ।  
 २१ पर जब पौलुस ने दुहाई दी कि मेरे मुकद्दमे का  
 फैसला महाराजाधिराज के यहां हो तो मैं ने आज्ञा  
 दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं उस की  
 २२ रखवाली की जाए । तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा  
 मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ । उस ने कहा  
 तू कल सुन लेगा ॥  
 २३ सो दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और विरनीके बड़ी  
 धूमधाम से आकर पलटन के सरदारों और नगर के  
 बड़े लोगों के साथ दरवार में पहुंचे तो फेस्तुस ने आज्ञा  
 २४ दी कि वे पौलुस को ले आएँ । फेस्तुस ने कहा हे राजा  
 अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यो जो यहां हमारे साथ हो  
 तुम इस को देखने हो जिस के विषय सारे यहूदियों ने  
 यरूशलेम में और यहां भी चिल्ला चिल्लाकर मुझ से  
 २५ बिनती की कि इस का जीता रहना उचित नहीं । पर  
 मैं ने जान लिया कि उस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि  
 मार डाला जाए और जब कि उस ने आप ही महाराजा-  
 धिराज की टाहाई दी तो मैं ने उसे भेजने का ठाना ।  
 २६ पर मैं ने उस के विषय कोई ठीक बात नहीं पाई कि  
 अपने स्वामी के पास लिखूँ इसलिये मैं उसे तुम्हारे  
 सामने और निज करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने  
 लाया हूँ कि जांचने के पीछे मुझे कुछ लिखने का  
 २७ मिले । क्योंकि बंधुण को भेजना और जो दोष उस पर  
 लगाए गए उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है ॥

**२६. अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा तुम्हें अपने**

विषय बोलने की आज्ञा

है । तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि,

- २ हे राजा अग्रिप्पा जितनी बातों का यहूदी मुझ पर  
 दोष लगाते हैं आज तेरे सामने उन का उत्तर देने में  
 ३ अपने को धन्य समझता हूँ । निज करके इसलिये कि  
 तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता

- है सो मैं बिनती करता हूँ धीरज से मेरी सुन ले ।  
 जैसा मेरा चाल चलन आरम्भ से अपनी जाति के बीच ४  
 और यरूशलेम में था यह सब यहूदी जानते हैं । वे ५  
 यदि गवाही देना चाहते हैं तो आदि से मुझे पहचानते  
 हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सब से खरे पन्थ  
 के अनुसार चला । और अब उस प्रतिज्ञा की आज्ञा के ६  
 कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी मुझ  
 पर मुकद्दमा चल रहा है । उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की ७  
 आज्ञा लगाए हुए हमारे वारहों गोत्र अपने सारे मन से  
 रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आये हैं । हे राजा  
 इसी आज्ञा के विषय यहूदी मुझ पर दोष लगाते  
 हैं । जब कि परमेश्वर मरे हुआ को जिलाता है तो ८  
 तुम्हारे यहां यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं  
 समझी जाती । मैं ने भी समझा था कि यीशु नामरी के ९  
 नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए । और १०  
 मैं ने यरूशलेम में ऐसा ही किया और महायाजकों से  
 अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को जेलखानों में  
 डाला और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उन के  
 विरोध में अपनी सम्मति देता था । और हर सभा में ११  
 मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निन्दा करवाता  
 था यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि १२  
 बाहर के नगरों में भी जा जाकर उन्हें सताता था । इसी १२  
 बीच जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना  
 लेकर दमिश्क का जा रहा था । तो हे राजा मार्ग में १३  
 दो पहर दिन के समय मैं ने आकाश से सूरज के तेज से  
 भी बड़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने-  
 वाली के चारों ओर चमकती हुई देखी । और जब हम १४  
 सब भूमि पर गिर पड़े तो मैं ने इब्रानी भाषा में मुझ से  
 यह कहने हुए एक शब्द सुना कि हे शाऊल हे शाऊल  
 तू मुझे क्यों सताता है, मैंने पर लात मारना तेरे  
 लिये कठिन है । मैं ने कहा हे प्रभु तू कौन है । प्रभु १५  
 ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है । पर उठ अपने १६  
 पांवों पर खड़ा हो क्योंकि मैं ने तुम्हें इसलिये दर्शन  
 दिया है कि तुम्हें उन बातों का भी सेवक और गवाह  
 ठहराऊँ जो तू ने देखी है और उन का भी जिन के लिये  
 मैं तुम्हें दर्शन दूंगा । और मैं तुम्हें तेरे लोगों से और १७  
 अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिन के पास मैं अब  
 तुम्हें इसलिये भेजता हूँ कि, तू उन की आंखें खोले कि १८  
 वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार  
 से परमेश्वर की ओर फिर कि पापों की क्षमा और  
 उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से  
 पवित्र किए गए हैं भीरास पाएं । सो हे राजा अग्रिप्पा १९



- २० मैं ने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली । पर पहिले दमिश्क के फिर यरूशलेम के रहनेवालों को तब यहू-दिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर
- २१ मन फिराव के योग्य काम करो । इन बातों के कारण यहूदी मुझे मन्दिर में पकड़के मार डालने का यतन करते थे । सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो नबियों और
- २२ मूसा ने भी कहा कि होनेवाली हैं, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सब से पहिले मरे हुआओं में से जी उठकर हमारे लोगों और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा ॥
- २४ जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा हे पौलुस तू पागल है बहुत विद्या
- २५ ने तुझे पागल कर दिया है । पर उस ने कहा हे महा-प्रतापी फेस्तुस मैं पागल नहीं पर सच्चाई और बुद्धि की
- २६ बातें कहता हूँ । राजा भी जिस के सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है और मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उस से छिपी नहीं कि यह
- २७ तो कोने में नहीं हुआ । हे राजा अग्रिप्पा क्या तू नबियों की प्रतीति करता है । हाँ मैं जानता हूँ कि तू प्रतीति करता है । तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है ।
- २९ पौलुस ने कहा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तूही नहीं पर जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बन्धनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएँ ॥
- ३० तब राजा और हाकिम और विरनीके और उन के
- ३१ साथ बैठनेवाले उठ खड़े हुए । और अलग जाकर आपस में कहने लगे यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो
- ३२ मृत्यु या बन्धन के योग्य हो । अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा यदि यह मनुष्य कैसर की दोहाई न देता तो छूट सकता ॥

**२७. जब यह ठहराया गया कि हम जहाज़ पर इतालिया को जाएँ तो उन्हें**

ने पौलुस और कितने और बन्धुओं को भी यूलियुस नाम

और गुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया ।

२ और अद्रमुत्तियुम के एक जहाज़ पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था चढ़कर हम ने

(१) ५० थोड़े में ।

उसे खोल दिया और अरिस्तर्खुस नाम थिस्सलुनीके का एक मकिदूनी हमारे साथ था । दूसरे दिन हम ने सैदा में लगान किया और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहां सत्कार पाने को जाने दिया । वहां से जहाज़ खोलकर हवा सामने होने के कारण हम कुप्रुस की आड़ में होकर चले । और किलकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे । वहां सूबेदार को मिकन्दरिया का एक जहाज़ इतालिया जाता हुआ मिला और हमें उस पर चढ़ा दिया । और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से कनिदुस के सामने पहुंचे तो इसलिये कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी सलमोने के सामने से होकर क्रैते की आड़ में चले । और उस के किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ-लंगरखारी नाम एक जगह पहुंचे जहां से लसया नगर निकट था ॥

जब बहुत दिन बीत गए और जलयाना में जाखिम इसलिये होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे साहिवो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत और बहुत हानि न केवल बोभाई और जहाज़ की बरन हमारे प्राणों की भी होनेवाली है । पर सूबे-दार ने पौलुस की बातों से मांभी और जहाज़ के स्वामी की बढ़कर मानी । और वह बन्दर जाड़ा काटने के लिये अच्छा न था इसलिये बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज़ खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटें यह तो क्रैते का एक बन्दर है जो दक्खिन पच्छिम और उत्तर पच्छिम की ओर खुलता है । जब कुछ कुछ दक्खिनी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा मतलब पूरा हो गया लंगर उठाया और किनारा धरें हुए क्रैते के पास से जाने लगे । पर थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलोन कहलाती है । यह जब जहाज़ पर लगी और वह हवा के सामने ठहर न सका तो हम ने उसे बहने दिया और इस तरह बहते हुए चले गए । तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से डोंगी को धर सके । उमें उठाकर उन्हें ने अनेक उपाय करके जहाज़ को नीचे से बांधा और सुरतिस पर टिक जाने के भय से पाल वाल उतार कर बहते हुए चले गए । और जब हम ने आंधी से बहुत दिक्काले खाए तो दूसरे दिन वे जहाज़ की बोभाई फेंकने लगे । और तीसरे दिन उन्हें ने अपने हाथों से जहाज़ का सामान फेंक दिया । और जब बहुत दिनों तक न सुरज

न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी  
 २१ अन्त में हमारे बचने का सारी आशा जाती रही। जब  
 वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उन के बीच में  
 खड़ा होकर कहा हे लोगो चाहिए था कि तुम मेरी बात  
 मानकर क्रोंते से न जहाज़ खोलते और न यह विपत्ति  
 २२ और हानि उठाते। पर अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि  
 ढाढ़स बांधो क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि  
 २३ न होगी केवल जहाज़ की। क्योंकि परमेश्वर जिस का  
 मैं हूँ और जिस की सेवा करता हूँ उस के स्वर्गदूत ने  
 २४ इसी रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर तुम्हें  
 कैसर के सामने खड़ा होना जरूर है और देख परमेश्वर  
 ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुम्हें दिया है।  
 २५ इसलिये हे साहिबों ढाढ़स बांधो क्योंकि मैं परमेश्वर का  
 प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझ से कहा गया है वैसा ही  
 २६ होगा। पर हमें किसी टापू पर पड़ना होगा ॥  
 २७ जब चौदहवीं रात हुई और हम अशिया समुद्र  
 में टकराते फिरते थे तो आंधी रात के निकट मल्लाहों  
 २८ ने अटकल से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच  
 रहे हैं और थाह लेकर उन्होंने ने बौस पुरसा पाया  
 और थोड़ा आगे बढ़ कर फिर थाह ली तो पन्द्रह  
 २९ पुरसा पाया। तब पत्थरीली जगहों पर पड़ने के डर से  
 उन्होंने ने जहाज़ की पिछाड़ी चार लंगर डाले और भोर  
 ३० का होना मनाते रहे। पर जब मल्लाह जहाज़ पर से  
 भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने  
 ३१ से डोंगी समुद्र में उतार दी। तो पौलुस ने सूबेदार  
 और सिपाहियों से कहा यदि ये जहाज़ पर न रहें तो  
 ३२ तुम नहीं बच सकते। तब सिपाहियों ने रस्से काटकर  
 ३३ डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था तो पौलुस ने  
 यह कहके सब को भोजन करने को समझाया कि आज  
 ३४ चौदह दिन हुये कि तुम आस देखते उपवासी रहे और  
 कुछ भोजन न किया। इसलिये तुम्हें समझाता हूँ कि  
 ३५ कुछ खा लो जिस से तुम्हारा बचाव हो क्योंकि तुम में  
 से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा और  
 यह कह उस ने रोटी लेकर सब के सामने परमेश्वर का  
 ३६ धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब  
 ३७ भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर  
 ३८ जहाज़ पर दो सौ छिहत्तर जन थे। जब वे भोजन  
 करके तृप्त हुए तो गेहूँ को समुद्र में फेंक कर जहाज़  
 ३९ हलका करने लगे। जब विहान हुआ तो उन्होंने ने उस  
 देश को नहीं पहचाना पर एक खाड़ी देखी जिस का  
 चौरस तीर था और विचार किया कि यदि हो सके तो  
 ४० इसी पर जहाज़ को टिकाएं। तब उन्होंने ने लंगरों को

खोल कर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों  
 के बन्धन खोल दिये और हवा के सामने अगला पाल  
 चढ़ाकर किनारे की ओर चले। पर दो समुद्रों के संगम ४१  
 की जगह पड़के उन्होंने ने जहाज़ को टिकाया और गलही  
 तो गड़ गई और टल न सकी पर पिछाड़ी लहरों के  
 बल से टूटने लगी। तब सिपाहियों का यह विचार ४२  
 हुआ कि बन्धुओं को मार डालें ऐसा न हो कि कोई  
 परके निकल भागे। पर सूबेदार ने पौलुस को बचाने ४३  
 की इच्छा से उन्हें उस विचार से रोका और यह कहा  
 कि जो पैर सकते हैं पहिले कूद कर किनारे पर निकल  
 जाएं। और बाकी कोई पटरो पर और कोई जहाज़ की ४४  
 और वस्तुओं के सहारे निकल जाएं और इस रीति से  
 सब कोई भूमि पर बच निकले ॥

२८. जब हम बच निकले तो जाना कि यह

टापू मिलिते कहलाता है। और २  
 उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की क्योंकि  
 मेंह के कारण जो पड़ता था और जाड़े के कारण उन्होंने  
 ने आग सुलगाकर हम सब को ठहराया। जब पौलुस ने ३  
 लकड़ियों का गट्टा बटोर कर आग पर रक्खा तो एक  
 सांप आंच पाकर निकला और उस के हाथ से लिपट ४  
 गया। जब उन जंगलियों ने कीड़े को उस के हाथ  
 से लटके हुए देखा तो आपस में कहा सचमुच यह मनुष्य  
 खूनी है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तौभी न्याय ने  
 जीता रहने न दिया। तब उस ने कीड़े को आग में ५  
 भटक दिया और कुछ हानि न पहुंची। पर वे बाट ६  
 जोहते थे कि वह सूज जाएगा या एकाएक गिरके मर  
 जाएगा पर जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा  
 कि उस का कुछ भी न बिगड़ा तो और ही विचार कर  
 कहा यह तो देवता है ॥

उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस टापू ७  
 के प्रधान की भूमि थी। उस ने हमें अपने घर ले जाकर  
 तीन दिन मित्रभाव से पहुंचाई की। पुबलियुस का ८  
 पिता ज्वर और आंव लोह से बीमार पड़ा था सो पौलुस  
 ने उस के पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर  
 हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस ९  
 टापू के बाकी बामार आए और चंगे किए गए। और १०  
 उन्होंने ने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने  
 लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज़ पर रख दिया ॥

तीन महीने के पीछे हम सिकन्दरिया के एक ११  
 जहाज़ पर चल निकले जो उस टापू में जाड़े भर रहा  
 था और जिस का चिन्ह दियुसकुरी था। सुरकूसा में १२  
 लगान करके हम तीन दिन रहे। वहां से हम घूमकर १३

- रेगियुम में आए और एक दिन के पीछे दखिनी हवा  
 १४ चली तब दूसरे दिन पुतयुली में आए । वहां हम को  
 भाई मिले और उन के कहने से हम उन के यहां सात  
 १५ दिन रहे और इस रीति से रोम को चले । वहां से भाई  
 हमारा समाचार सुनकर अर्पियुस के चौक और तीन-  
 सराए तक हमारी भेंट करने को निकल आए जिन्हें  
 देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और  
 दाढ़स बांधा ॥
- १६ जब हम रोमा में पहुंचे तो पौलुस को एक  
 सिपाही के साथ जो उस की रखवाली करता था अकेले  
 रहने की आज्ञा हुई ॥
- १७ तीन दिन के पीछे उस ने यहूदियों के बड़े लोगों  
 को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उन से कहा हे  
 भाइयो मैं ने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों  
 के विरोध में कुछ नहीं किया तौमी बन्धुआ होकर  
 १८ यरूशलेम से रोमियों के हाथ सोपा गया । उन्होंने  
 मुझे जांच कर छाड़ देना चाहा क्योंकि मुझ में मृत्यु के  
 १९ योग्य कोई दोष न था । पर जब यहूदी इस के विरोध  
 में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दोहाई देनी पड़ी ।  
 न यह कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था ।  
 २० इसलिये मैं ने तुम को बुलाया है कि तुम से मिलूं  
 और बात चीत करूं क्योंकि इस्राईल की आज्ञा के लिये  
 २१ मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं । उन्होंने ने उस से कहा  
 न हम ने तेरे विषय यहूदियों से चिट्ठियां पाईं न  
 भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय कुछ बताया  
 २२ और न बुरा कहा । पर तेरे विचार क्या हैं वही हम

तुम से सुनना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हर  
 जगह इस मत के विरोध में कहते हैं ॥

तो उन्होंने ने उस के लिये एक दिन ठहराया और २३  
 बहुत लोग उस के ठिकाने पर इकट्ठे हुए और वह पर-  
 मेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की  
 व्यवस्था और नबियों की पुस्तकों से यीशु के विषय  
 समझा ममभाकर भीर से सांभ तक चर्चा करता रहा ।  
 तब कितनों ने उन बातों को मान लिया और कितनों २४  
 ने प्रतीति न की । जब आपस में एक मत न हुए तो २५  
 पौलुस के इस एक बात कहने पर चले गए कि पवित्र  
 आत्मा ने यशायाह नबी के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से  
 अन्त्रा कहा कि, जाकर इन लोगों से कह कि २६  
 सुनते तो रहोगे पर न समझोगे और देखते तो रहोगे  
 पर न बूझोगे । क्योंकि इन लोगों का मन मोटा २७  
 और उन के कान भारी हो गए और उन्होंने ने अपनी  
 आंखें बन्द की हैं ऐसा न हो कि वे कभी आंखों  
 से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और  
 फिर और मैं उन्हें चगा करूं । सो तुम जानो कि २८  
 परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्यजातियों के पास  
 भेजी गई है और वे सुनेंगे ॥

और वह पूरे दो बरस अपने भाड़े के घर में रहा ३०  
 और जो उस के पास आते थे उन सब से मिलता रहा ।  
 और बिना रोक टोक बहुत निडर हो कर परमेश्वर के ३१  
 राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें  
 सिखाता रहा ॥

## रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री ।

१. पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह  
 का दास है और प्रेरित होने के  
 लिये बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के  
 २ लिये अलग किया गया है, जिस की उस ने पहिले मे  
 ३ अपने नबियों के द्वारा पवित्र शास्त्र में, अपने पुत्र हमारे  
 प्रभु यीशु मसीह के विषय प्रतिज्ञा की थी जो शरीर  
 ४ के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और  
 पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुएों में से जी  
 उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा,

जिस के द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उस ५  
 के नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके  
 उस की मानें, जिन में से तुम भी यीशु मसीह के होने ६  
 के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोमा में ७  
 परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिये बुलाए  
 गए हैं ॥

हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की  
 ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिले ॥

पहिले मैं तुम सब के लिये यीशु मसीह के द्वारा ८

- अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे
- ९ विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है । परमेश्वर जिस की सेवा मैं अपने आत्मा से उस के पुत्र के सुसमाचार के विषय करता हूँ वही मेरा गवाह है कि मैं
- १० तुम्हें कैसे लगातार स्मरण करता रहता हूँ । और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में बिनती करता हूँ कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की
- ११ इच्छा से सुफल हो । क्योंकि मैं तुम से मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ
- १२ जिस से तुम स्थिर हो जाओ । अर्थात् यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के
- १३ द्वारा जो मुझ में और तुम में है शान्ति पाऊँ । और हे भाइयो मैं नहीं चाहता कि तुम इस से अनजान रहो कि मैं ने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्यजातियों में फल मिला वैसा ही तुम में
- १४ भी मिले पर अब तक रुका रहा । मैं यूनानियों और अन्यभाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का
- १५ करजदार हूँ । सो मैं तुम्हें भी जो रोमा में रहते हो
- १६ सुसमाचार सुनाने का भरसक तैयार हूँ । क्योंकि मैं सुसमाचार ने नहीं लजाता इसलिये कि वह हर एक विश्वास करनेवाले के लिये पाँहले यहूदी फिर यूनानों के लिये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है ।
- १७ क्योंकि उस में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिये प्रगट होता है जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मा जीता रहना ॥
- १८ परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सारी अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रगट होता है जो सत्य
- १९ का अधर्म से दबाये रखते हैं । इसलिये कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उन के मनो में प्रगट है क्योंकि पर-
- २० मेश्वर ने उन पर प्रगट किया है । क्योंकि उस के अनदेखे गुण अर्थात् उस की सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उस के कामों के द्वारा देखने में आते हैं यहां तक कि वे निरुत्तर हैं ।
- २१ इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने ने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया पर व्यर्थ विचार करने लगे यहां तक कि उन का निर्बुद्धि
- २२ मन अंधेरा हो गया । वे अपने आप को बुद्धिमान् जता
- २३ कर मुख बन गए । और आवनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पाँत्यों और चौपायों और रेंगनेवाले जन्तुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला ॥
- २४ इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उन के मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिये छोड़ दिया

कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें । इसलिये २५ कि उन्होंने ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की और न कि सृजनहार का जो सदा धन्य है । आमीन ॥

इसलिये परमेश्वर ने उन्हें नीचे कामवाओं के २६ वश में छोड़ दिया यहां तक कि उन की स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उस से जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला । वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ २७ स्वाभाविक व्यवहार छोड़ कर आपस में कामानुर हो जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्नेज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया ॥

और जब उन्होंने ने परमेश्वर को पहचानना न २८ चाहा इसलिये परमेश्वर ने भी उन्हें उन के निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम कर । सो ये मय २९ प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और खून और भगड़ और झूल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और नुरालखोर, बदनाम ३० करनेवाले परमेश्वर के देखने में धनीने औरों का अनादर करनेवाले अभिमानी डींगमार बुरा बुरा बातों के बनानेवाले माता पिता की आज्ञा न माननेवाले, निर्बुद्धि विश्वासघाती मयारहित और निर्दय हो गए । ३१ वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे ३२ काम करनेवाले मृत्यु के दण्ड के योग्य हैं तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करनेवाले से प्रसन्न भी होते हैं ॥

**२. सो** हे दोष लगानेवाले तू कोई क्यों न

हो तू निरुत्तर है क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को दोषी ठहराता है इसलिये कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है । और हम जानते हैं २ कि ऐसे ऐसे काम करनेवालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दण्ड की आज्ञा होती है । और हे मनुष्य तू ३ जो ऐसे ऐसे काम करनेवालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दण्ड की आज्ञा से बच जाएगा । क्या तू ४ उस की कृपा और सहनशीलता और धीरजरूपी धन को तुच्छ जानता है और यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है । पर अपनी ५ कठोरता और हठोले मन के अनुसार उस क्रोध के दिन के लिये जिस में परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रगट होगा अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है । वह दर एक को ६

७ उस के कामों के अनुसार बदला देगा । जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की ८ स्वाज में हैं उन्हें वह अनन्त जीवन देगा । पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म ९ को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा । और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा पहिले यहूदी पर फिर यूनानी पर । १० पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है पहिले यहूदी को फिर यूनानी ११, १२ को । क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता । इस लिये कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उन का दण्ड व्यवस्था के अनुसार १३ होगा । (क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुननेवाले धर्मा नहीं पर व्यवस्था पर चलनेवाले धर्मा १४ ठहराए जाएंगे । फिर जब अन्यजाति लोग जिन के पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं तो व्यवस्था उन के पास न होने पर भी वे अपने १५ लिये आप ही व्यवस्था हैं । वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उन के विवेक भी गवाही देते हैं और उन का चिन्ताएं परस्पर दोष १६ लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं ।) जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा ॥

१७ यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय घमण्ड करता है । १८ और उस की इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर १९ उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है । और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुवा और अधकार २० में पड़े हुआ की उपाति, और बुद्धिहीनों का सिखानेवाला और बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य २१ का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है । सो क्या तू जो औरों का सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता । क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता २२ है आप ही चोर करता है । तू जो व्यभिचार न करना कहता है क्या आप ही व्यभिचार करता है । तू जो मूर्तों से घिन करता है क्या आप ही मन्दिरों को २३ लूटता है । तू जो व्यवस्था के विषय घमण्ड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता २४ है । क्योंकि तुम्हारे कारण अन्यजातियों में परमेश्वर के नाम की निन्दा की जाती है जैसा लिखा भी है ।

(१) मन, कांशंस ।

यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है पर २५ यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा । सो यदि खतना रहित मनुष्य २६ व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उस की बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी । और जो मनुष्य जाति के कारण बिना खतना रहा यदि २७ वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषा न ठहराएगा । क्योंकि वह यहूदी नहीं २८ जो प्रगट में यहूदी है और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है । पर यहूदी वही है जो मन में है २९ और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है न कि लेख का । ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परन्तु परमेश्वर की ओर से होता है ॥

३. सो यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ । हर प्रकार से बहुत २ कुछ । पहिले यह कि परमेश्वर के वचन उन को सोंपे गए । यदि कितने विश्वासघाती निकले तो क्या हुआ । ३ क्या उन के विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी । ऐसा न हो वरन परमेश्वर सच्चा और ४ हर एक मनुष्य भूटा ठहरे जैसा लिखा है कि जिस से तू अपनी बातों में धर्मा ठहरें और न्याय करते समय तू जय पाए । सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की ५ घामिकता ठहरा देता है तो हम क्या करें । क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है (यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं) । ऐसा न हो नहीं ६ तो परमेश्वर क्योंकि जगत का न्याय करेगा । यदि मेरे भूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उस की महिमा के लिये अधिक करके प्रगट हुई तो फिर क्यों पापी की नाई में दण्ड के योग्य ठहराया जाता हूं । और हम ८ क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कितने कहते हैं कि इन का यही कहना है । ऐंसा का दोषा ठहरना ठीक है ॥

सो क्या हुआ क्या हम उन से अच्छे हैं । कर्मा ९ नहीं क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं । जैसा लिखा है कि कोई धर्मा नहीं एक भी १० नहीं । कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का ११ खोजनेवाला नहीं । सब भटक गए हैं सब के सब १२ निकम्मे बन गए कोई भलाई करनेवाला नहीं एक भी नहीं । उन का गला खुली हुई क्रबर है उन्होंने ने अपनी १३ जीभों से छल किया है उन के होठों में सांपों का विष

१४ है । और उन का मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा  
१५, १६ है । उन के पांव लोहू बहाने को फुर्तीले हैं । उन के  
१७ मार्गों में नाश और क्रेश है । उन्होंने ने कुशल का  
१८ मार्ग नहीं जाना । उन की आंखों के सामने परमेश्वर  
का भय नहीं ॥

१९ हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं  
से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं इसलिये कि हर  
एक मुंह बन्द किया जाय और सारा संसार परमेश्वर के  
२० डण्ड के योग्य ठहरे । क्योंकि व्यवस्था के कामों से  
कोई प्राणी उस के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा इसलिये  
कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है ।  
२१ पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता  
प्रगट हुई है जिस की गवाही व्यवस्था और नबी  
२२ देते हैं । अर्थात् परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु  
मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करनेवालों के  
२३ लिये है क्योंकि कुछ भेद नहीं । इसलिये कि सब ने  
पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं ।  
२४ पर उस के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह  
२५ यीशु में है मृत मृत धर्मी ठहराए जाते हैं । उसे  
परमेश्वर ने उस के लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित्त  
ठहराया जा विश्वास करने से काम का हो कि जो पाप  
पहिले किए गए और जिन की परमेश्वर ने अपनी  
महनशीलता से आनाकानी की उन के विषय  
२६ वह अपनी धार्मिकता प्रगट करे । वरन इसी समय  
उस की धार्मिकता प्रगट हो कि जिस से वह आप ही  
धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उस का भी  
२७ धर्मी ठहरानेवाला हो । तो घमण्ड करना कहां रहा ।  
उस की जगह ही नहीं । कौन सी व्यवस्था के कारण ।  
क्या कर्मों की । नहीं वरन विश्वास की व्यवस्था के  
२८ कारण । इसलिये हम समझे कि मनुष्य व्यवस्था के  
कामों बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है ।  
२९ क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है क्या  
अन्यजातियों का नहीं हां अन्यजातियों का भी है ।  
३० क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो स्वतन्त्रियों का विश्वास  
से और स्वतन्त्रियों का भी विश्वास के द्वारा धर्मी  
३१ ठहराएगा । तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के  
द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं । ऐसा न हो वरन व्यवस्था  
को स्थिर करते हैं ॥

## ४. सो

हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक  
पिता इब्राहीम को क्या मिला ।

२ यदि इब्राहीम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे  
घमण्ड करने की जगह होती परन्तु परमेश्वर के निकट

नहीं । पवित्रशास्त्र क्या कहता है यह कि इब्राहीम ने ३  
परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उस के लिये ४  
धार्मिकता गिना गया । काम करनेवाले की मजदूरी ५  
देना दान नहीं पर हक समझा जाता है । पर जो ५  
काम नहीं करता वरन भक्तहीन के धर्मी ठहरानेवाले  
पर विश्वास करता है उस का विश्वास उस के लिये ६  
धार्मिकता गिना जाता है । जिसे परमेश्वर बिना ६  
कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता ७  
है कि, धन्य वे हैं जिन के अधर्म क्षमा हुए और ७  
। जन के पाप ढाँपे गए, धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर ८  
पापी न ठहराए । तो यह धन्य कहना क्या स्वतन्त्रियों ९  
ही के लिये है या स्वतन्त्रियों के लिये भी । हम यह ९  
कहते हैं कि इब्राहीम के लिये उस का विश्वास धार्मिक-  
कता गिना गया । तो वह क्योंकर गिना गया । १०  
स्वतन्त्रियों की दशा में या बिन स्वतन्त्रियों की दशा में ।  
स्वतन्त्रियों की दशा में नहीं पर बिन स्वतन्त्रियों की दशा ११  
में । और उस ने स्वतन्त्रियों का चिन्ह पाया कि उस ११  
विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उम ने  
बिना स्वतन्त्रियों की दशा में रक्खा था, जिस से वह उन सब १२  
का पिता ठहरे जो बिना स्वतन्त्रियों की दशा में विश्वास  
करते हैं और वे भी धर्मी ठहरें, और उन स्वतन्त्रियों किए १२  
हुओं का पिता हो जो न केवल स्वतन्त्रियों किए हुए हैं पर  
हमारे पिता इब्राहीम के उस विश्वास को लीक पर भी  
चलते हैं जो उस ने बिन स्वतन्त्रियों की दशा में किया था ।  
क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न १३  
इब्राहीम को न उम के वंश के व्यवस्था के द्वारा दो  
गड थी पर विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली ।  
क्योंकि यदि व्यवस्थावाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ १४  
और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरे । व्यवस्था तो क्रोध उत्पन्न १५  
है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उस का टालना भी नहीं ।  
इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह १६  
की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा मात्र वंश के लिये दृढ़ हो  
न केवल उस के लिये जो व्यवस्थावाला है वरन उन के  
लिये भी जो इब्राहीम के समान विश्वासवान हैं । वही १७  
तो हम सब का पिता है । (जैसा लिखा है कि मैं ने १७  
तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है) उस  
परमेश्वर के सामने जिस पर उस ने विश्वास किया और  
जो मेरे हुओं का जिलाता है और जो बाले हैं ही नहीं १८  
उन का नाम ऐसा लेता कि मानो वे हैं । उस ने निराशा १८  
में भी आशा रखकर विश्वास किया इसलिये कि उस  
वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी

१९ जातियों का पिता हो । और वह जो सौ एक बरस का था अपने मरे हुए से शरीर और साराह के गभ की मरी हुई की सी दशा जान कर भी विश्वास में निर्बल  
२० न हुआ । और न आश्वासनी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की  
२१ महिमा की । और निश्चय जाना कि जिस बात का उस ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने का भी सामर्थ्य  
२२ है । इस कारण यह उस के लिये धार्मिकता गिना गया ।  
२३ और यह वचन कि उस के लिये गिना गया न केवल  
२४ उसी के लिये लिखा गया, बरन हमारे लिये भी जिन के लिये गिना जाएगा अर्थात् हमारे लिये जो उस पर विश्वास करते हैं जिस ने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुआओं में से जिलाया । वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मा ठहरने के कारण जिलाया गया ॥

**५. सो** जब हम विश्वास से धर्मा ठहरें तो अपने प्रभु यीशु मसीह के

२ द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें । जिस के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिस में हम बने हैं हमारी पहचान भी हुई और परमेश्वर की महिमा की  
३ आशा पर घमण्ड करें । केवल यह नहीं बरन हम क्लेशों में भी घमण्ड करें यही जानकर कि क्लेश से  
४ धीरज, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है । और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उस के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला  
६ गया है । क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह  
७ ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिये मरा । किसी धर्मा जन के लिये कोई मरे यह तो दुर्लभ है पर क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिये कोई मरने का भी हिंसाव  
८ करें । परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रगट करता है कि जब हम पापी ही थे तो  
९ मसीह हमारे लिये मरा । सो जब कि हम अब उस के लोहू के कारण धर्मा ठहरें तो उस के द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे । क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उस के पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ फिर मेल हो जाने से तो उस के जीवन के कारण  
११ हम उद्धार क्यों न पाएंगे । और केवल यही नहीं पर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस के द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर के विषय घमण्ड भी करते हैं ॥  
१२ इसलिये जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में

आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई इसलिये कि सब ने पाप किया । क्योंकि व्यवस्था के लिए जाने तक पाप  
१३ जगत में तो था पर जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता । तौभी आदम से लेकर मृत्ता तक मृत्यु ने  
१४ उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाईं जो उस आनेवाले का चिन्ह है पाप न किया । पर जैसा अपराध है वैसा वह बरदान नहीं  
१५ क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उस का जो दान एक मनुष्य के अर्थात् यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ । और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल  
१६ हुआ वैसा दान की दशा नहीं क्योंकि एक ही के कारण दण्ड की आज्ञा का फंसला हुआ पर बहुतेरे अपराधों से ऐसा बरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मा ठहरें । क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु  
१७ ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी बरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात् यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे । इसलिये जैसा एक अपराध  
१८ सब मनुष्यों के लिये दंड की आज्ञा का कारण हुआ वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिये जीवन के निमित्त धर्मा ठहराए जाने का कारण हुआ । क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत  
१९ लोग पापी ठहरें वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मा ठहरेंगे । और व्यवस्था बीच में आ  
२० गई कि अपराध बहुत ही पर जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उस से कहीं अधिक हुआ । कि जैसा पाप  
२१ ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनन्त जीवन के लिये धर्मा ठहराते हुए राज्य करें ॥

**६. सो** हम क्या कहें । क्या हम पाप करते

रहें कि अनुग्रह बहुत ही । ऐसा न हो । हम जो पाप के लिये मर गये आगे को उस में  
२ क्योंकर जीवन काटें । क्या तुम नहीं जानते कि  
३ हम जितने ने मसीह यीशु का अपतिसमा लिया उस की मृत्यु का अपतिसमा लिया । सो उस मृत्यु का अप-  
४ तिसमा पाने से हम उस के साथ गाड़े गये कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुआओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल

५ चलें । क्योंकि यदि हम उस की मृत्यु की समानता में उस के साथ जुट गए हैं तो निश्चय उस के जी उठने ६ की समानता में भी जुट जाएंगे । क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उस के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया कि पाप का शरीर अकारण हो जाए कि हम आगे ७ को पाप के दास न रहें । क्योंकि जो मर गया वह पाप ८ से छूट कर धर्मी ठहरा । सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उस के साथ ९ जीएंगे भी । क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुआ में से जी उठ कर फिर मरने का नहीं उस पर फिर मृत्यु की १० प्रभुता नहीं होने की । क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिये एक ही बार मर गया पर जो जीवित है तो पर- ११ मेश्वर के लिये जीवित है । ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिये तो मरा परन्तु परमेश्वर के लिये मसीह यीशु में जीवित समझो ॥

१२ सो पाप तुम्हारे मरनहार शरीर में राज्य न करे कि १३ तुम उस की लालसाओं के अधीन रहो । और न अपने अंगों के अधर्म के हथियार होने के लिये पाप को सौंपो पर अपने आप को मरे हुआ में से जी उठे जानकर पर- १४ मेश्वर को सौंपो और अपने अंगों के धर्म के हथियार होने के लिये परमेश्वर को सौंपो । क्योंकि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बरन अनुग्रह के अधीन हो ॥

१५ सो क्या हुआ । क्या हम इसलिये पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं बरन अनुग्रह के अधीन १६ हैं ऐसा न हो । क्या तुम नहीं जानते कि जिस की आज्ञा मानने के लिये तुम अपने आर को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो जिस की मानते हो चाहे पाप के जिस का अन्त मृत्यु है चाहे आज्ञा १७ मानने के जिस का अंत धार्मिकता है । परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तौभी मन से उस उपदेश के माननेवाले हो गए जिस के साथ १८ में ढाले गए थे । और पाप से छुड़ाये जाकर धर्म के १९ दास हो गए । मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं जैसे तुम ने अपने अंगों को अधर्म के लिये अशुद्धता और अधर्म के दास करके सौंपा था वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिये २० धर्म के दास करके सौंप दो । जब तुम पाप के दास थे तो २१ धर्म को और से स्वतंत्र थे । सो जिन बातों से अब तुम लजते हो उन से उस समय तुम क्या फल पाते थे क्योंकि उन २२ का अंत तो मृत्यु है । पर अब पाप से छुड़ाए जाकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम को पवित्रता के लिये तुम्हारा

फल मिलता है और उस का अंत अनन्त जीवन है । क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परन्तु परमेश्वर का २३ बरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनन्त जीवन है ॥

## ७. हे

भाइयो क्या तुम नहीं जानते (मैं व्यवस्था के जाननेवालों से कहता हूं) कि जब तक मनुष्य जीता रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है । क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार २ अपने पति के जीते जी उस से बन्धी है पर यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई । इसलिये यदि ३ पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी पर यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी न ठहरेगी । सो हे मेरे भाइयो तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था ४ के लिये मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुआ में से जी उठा कि हम परमेश्वर के लिये फल लाएं । क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों के अभिलाष जो व्यवस्था के द्वारा थे मृत्यु का फल ५ उपजाने के लिये हमारे अंगों में काम करते थे । पर जिस के बंध में थे उस के लिये मर कर अब हम व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं बरन ६ आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं ॥

सो हम क्या कहें । क्या व्यवस्था पाप है । ऐसा ७ न हो बरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को न पहचानता । व्यवस्था जो न कहती कि लालच न कर तो मैं लालच को न जानता । पर पाप ने अबसर पाकर आज्ञा के ८ द्वारा मुझे सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मरा हुआ है । मैं तो व्यवस्था बिना ९ पहिले जीवित था पर जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया । और वही आज्ञा जो जीवन के लिये १० थी मेरे लिये मृत्यु का कारण ठहरी । क्योंकि पाप ने ११ अबसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला । सो व्यवस्था पवित्र है और १२ आज्ञा भी ठीक और अच्छी है । तो क्या वह जो अच्छी १३ थी मेरे लिये मृत्यु ठहरी । ऐसा न हो पर पाप इसी लिये कि उस का पाप होना प्रगट हो उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिये मृत्यु का उत्पन्न करनेवाला हुआ कि १४ आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमग ठहरे । क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है पर मैं शारीरिक और पाप के हाथ विका हुआ हूं । और जो मैं करता हूं १५ उस को नहीं जानता क्योंकि जो मैं चाहता हूं वही नहीं किया करता पर जिस से मुझे धिन आती है वही करता



१६ हूँ । पर यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं  
 १७ मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है । सो ऐसी दशा में  
 उस का करनेवाला मैं नहीं बरन पाप है जो मुझ में बसा  
 १८ हुआ है । क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात् मेरे  
 शरीर में कोई अच्छी वस्तु बास नहीं करती इच्छा तो  
 १९ मुझ में है पर भले काम मुझ से बन नहीं पड़ते । क्योंकि  
 जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो  
 नहीं करता पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही  
 २० किया करता हूँ । पर यदि मैं वही करता हूँ जिस की  
 इच्छा नहीं करता तो उस का करनेवाला मैं न रहा पर  
 २१ पाप जो मुझ में बसा हुआ है । सो मैं यह व्यवस्था  
 पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो  
 २२ बुराई मेरे पास आती है । क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व  
 २३ से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ । पर  
 मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था देख  
 पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और  
 मुझे पाप की व्यवस्था की जो मेरे अंगों में है बन्धन में  
 २४ डालती है । मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूँ मुझे इस मृत्यु  
 २५ की देह से कौन छुड़ाएगा । हमारे प्रभु यीशु मसीह के  
 द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ । निदान मैं आप  
 बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का पर शरीर से पाप  
 की व्यवस्था का सेवन करता हूँ ॥

२ **८. सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दण्ड की**  
 आज्ञा नहीं । क्योंकि जीवन के आत्मा की  
 व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की  
 ३ व्यवस्था से स्वतन्त्र कर दिया । क्योंकि जो काम व्यवस्था  
 शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उस को परमेश्वर  
 ने किया अर्थात् अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की  
 समानता में और पाप के बलिदान होने के लिये भेजकर  
 ४ शरीर में पाप पर दण्ड की आज्ञा दी । इसलिये कि  
 व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं  
 बरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए ।  
 ५ शरीर के अनुसारी शरीर की बातों पर मन लगाते हैं  
 पर आत्मा के अनुसारी आत्मा की बातों पर मन  
 ६ लगाते हैं । शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है पर  
 ७ आत्मा पर मन लगाना जीवन और शान्ति है । हम  
 कारण कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर  
 रखना है क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है  
 ८ और न हो सकता है । और जो शारीरिक दशा में हैं वे  
 ९ परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते । पर जब कि  
 परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा  
 में नहीं पर आत्मिक दशा में हो । यदि किसी में मसीह

का आत्मा नहीं तो वह उस का जन नहीं । और यदि १०  
 मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरा हुआ है पर  
 आत्मा धर्म के कारण जीविता है । और यदि उसी का ११  
 आत्मा जिस ने यीशु को मरे हुएओं में से जिलाया तुम में  
 बसा हुआ है तो जिस ने मसीह को मरे हुएओं में से  
 जिलाया वह तुम्हारी मरनहार देहों को भी अपने आत्मा  
 के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा ॥

सो हे भाइयो हम शरीर के करजदार नहीं कि १२  
 शरीर के अनुसार दिन काटें । क्योंकि यदि तुम शरीर १३  
 के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे और यदि आत्मा  
 से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीते रहोगे । इस- १४  
 लिये कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए  
 चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं । क्योंकि तुम को १५  
 दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयमान हो पर  
 लेपालकपन का आत्मा मिला है जिस से हम हे अब्बा  
 हे पिता पुकारते हैं । आत्मा आप ही हमारे आत्मा के १६  
 साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के सन्तान हैं ।  
 और यदि सन्तान हैं तो वारिस भी बरन परमेश्वर के १७  
 वारिस और मसीह के सगी वारिस हैं जब कि हम उस के  
 साथ दुख उठाए कि उस के साथ महिमा भी पाएं ॥

क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय वे दुख उस १८  
 महिमा के सामने जो हम पर प्रगट होनेवाली है कुछ  
 गिनने के योग्य नहीं । क्योंकि सृष्टि बड़े ही चाव से १९  
 परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की बाट जोहती है ।  
 क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करनेवाले २०  
 की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई  
 कि, सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा २१  
 पाकर परमेश्वर के सन्तानों की महिमा की स्वतंत्रता  
 प्राप्त करेगी । क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब २२  
 तक मिल कर कहरती और पीड़ों में पड़ी तड़पती है ।  
 और केवल वही नहीं पर हम भी जिन के पास आत्मा २३  
 का पहिला फल है आप ही अपने में कहरते हैं और  
 लेपालक होने की अर्थात् अपनी देह के छुटकारे की  
 बाट जोहते हैं । आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ २४  
 पर जिम वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में  
 आए तो फिर आशा कहाँ रही क्योंकि जिस वस्तु को  
 कोई देख रहा है उस की आशा क्या करेगा । पर जिस २५  
 वस्तु को हम नहीं देखते यदि उस की आशा रखते हैं  
 तो धीरज से उस की बाट जोहते हैं ॥

इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहा- २६  
 यता कृपा है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस  
 रीति से करना चाहिए पर आत्मा आप ही ऐसी आहें

- भर भरकर जो कहने से बाहर हैं हमारे लिये  
 २७ बिनती करता है । और मनो का जांचनेवाला जानता है  
 कि आत्मा की मनसा क्या है कि वह पवित्र लोगों के  
 लिये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिनती करता है ।  
 २८ और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते  
 हैं उन के लिये सब बातें मिलकर भलाई ही का उत्पन्न  
 करती हैं अर्थात् उन्हीं के लिये जो उन की इच्छा के  
 २९ अनुसार बुलाए हुए हैं । क्योंकि जिन्हें उस से पहिले से  
 जाना उन्हें पहिले से ठहराया भी कि उस के पुत्र के  
 सरीखे हों कि वह बहुत भाइयों में पहिलीठा ठहरे ।  
 ३० फिर जिन्हें उस ने पहिले से ठहराया उन्हें बुलाया भी  
 और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया और जिन्हें  
 धर्मी ठहराया उन्हें मांहमा भी दी ॥  
 ३१ सो हम इन बातों के विषय क्या कहें । यदि  
 परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन होगा ।  
 ३२ जिस ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा पर उसे  
 हम सब के लिये दे दिया वह उस के साथ हम और  
 ३३ सब कुछ क्योंकर न देगा । परमेश्वर के चुने हुआ पर  
 दोष कौन लगाएगा । क्या परमेश्वर जा धर्मी ठहरा-  
 ३४ नेवाला है । कौन है जो दण्ड की आज्ञा देगा । क्या  
 मसीह जो मरा बरन जी भी उठा और परमेश्वर की  
 दहिनी ओर है और हमारे लिये बिनती भी करता है ।  
 ३५ कौन हम को मसीह के प्रेम से अलग करेगा । क्या  
 क्लेश या सकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या  
 ३६ जोखिम या तलवार । जैसा लिखा है कि तें लिये हम  
 दिन भर घात किए जाते हैं हम वध होनेवाली भेड़ों की  
 ३७ नाईं गिने गए हैं । पर इन सब बातों में हम उस के द्वारा  
 जिस ने हम से प्रेम किया है जयवन्त से भी बढ़कर  
 ३८ हैं । क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन  
 न स्वर्गदूत न प्रधानताए न वत्तमान न भविष्य न  
 ३९ सामर्थ्य, न ऊंचाई न गहिराई और न कोई और सृष्टि  
 हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में  
 है अलग कर सकेगा ॥

**६. मैं** मसीह में सत्य कहता हूं झूठ नहीं  
 बोलता और मेरा विवेक भी पवित्र

- २ आत्मा में गवाही देता है कि । मुझे बड़ा शोक है और  
 ३ मेरा मन सदा दुखता रहता है । क्योंकि मैं यहां तक  
 चाहता था कि अपने भाइयों के लिये जो शरीर के  
 भाव से मेरे कुटुम्बी हैं आपही मसीह से स्थापित हो  
 ४ जाता । वे इसाईली हैं और लेपालकपन का हक और

महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और  
 प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं । पुरखे भी उन्हीं के हैं और  
 मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ जो सब के  
 ऊपर परमेश्वर युगानुयुग धन्य है आमीन । पर यह  
 नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया इसलिये कि जो  
 इसाईल के वंश हैं वे सब इसाईली नहीं । और न  
 इब्राहीम के वंश होने के कारण सब उस के सन्तान  
 ठहरे पर (लिखा है) कि इमहाक ही से तेरा वंश  
 कहलाएगा । अर्थात् शरीर के सन्तान परमेश्वर के  
 सन्तान नहीं पर प्रतिज्ञा के सन्तान वंश गिने जाते  
 हैं । क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय  
 के अनुसार आऊंगा और साराह के पुत्र होगा । और  
 केवल यही नहीं पर जब रिबकाह भी एक से अर्थात्  
 हमारे पिता इतहाक से गर्भवती थी । और अभी तक  
 न तो बालक जन्मे थे और न उन्हीं ने कुछ भला या  
 बुरा किया था कि उस ने कहा कि जेठा छुटके का दास  
 होगा । इसलिये कि परमेश्वर की मनसा जो उस के  
 चुन लेने के अनुसार है कर्मों के कारण नहीं पर बुला-  
 नेवाले पर बनी रहें । जैसा लिखा है कि मैं ने याकूब से  
 प्रेम किया पर एसी का अप्रिय जाना ॥

सो हम क्या कहें । कि परमेश्वर के यहां अन्याय  
 है ऐसा न हो । क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं  
 जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा  
 और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा  
 करूंगा । सो यह न तो चाहनेवाले की न दौड़नेवाले  
 की पर दया करनेवाले परमेश्वर की बात है । क्योंकि  
 पावत्र शास्त्र में फिरोन से कहा गया कि मैं ने तुझ इसी  
 लिये खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाने  
 और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथिवी पर हो । सो वह  
 जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे  
 चाहता है उसे कठोर कर देता है ॥

सो तू मुझ से कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता  
 है कौन उस की इच्छा का सामना करता है । हे  
 मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता  
 है । क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़नेवाले से कह सकती है कि  
 तू ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है । क्या कुम्हार को मिट्टी  
 पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक बरतन आदर  
 के लिये और दूसरे को अनादर के लिये बनाए । और  
 यदि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ  
 प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनों की जो विनाश  
 के लिये तैयार किये गये थे बड़े धीरज से सही । और  
 दया के बरतनों पर जिन्हें उस ने मांहमा के लिये पहिले

से तैयार किया अपनी महिमा के धन को प्रगट करने  
 २४ की इच्छा की। अर्थात् हम पर जिन्हें उस ने न  
 केवल यहूदियों में से बरन अन्यजातियों में से  
 २५ भी बुलाया। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी  
 कहता है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा  
 २६ कहूंगा और जो प्यारी न थी उसे प्यारी कहूंगा। और  
 जिस जगह में उन से यह कहा गया था कि तुम मेरी  
 प्रजा नहीं हो उसी जगह वे जीविते परमेश्वर के सन्तान  
 २७ कहलाएंगे। और यशायाह इस्राईल के विषय पुकार-  
 कर कहता है कि चाहे इस्राईल के सन्तानों की गिनती  
 समुद्र के बालू के बराबर हो तभी उन में से थोड़े ही  
 २८ बचेंगे। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथिवी पर पूरा करके  
 २९ और शीघ्र करके (सद्) करेगा। जैसा यशायाह ने  
 पहिले भी कहा था कि यदि सेनाओं का प्रभु हमारे  
 लिये कुछ बश न छोड़ता तो हम सदोम की नाई हो  
 जाते और अमोराह सरीखे ठहरते ॥

३० सो हम क्या कहें। यह कि अन्यजातियों ने जो  
 धार्मिकता की खोज न करते थे धार्मिकता प्राप्त की  
 ३१ अर्थात् उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। पर  
 इस्राईली धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था  
 ३२ तक नहीं पहुंचे। किस लिये इसलिये कि वे विश्वास से  
 नहीं पर मानों कर्मों से उस की खोज करते थे। उन्होंने  
 ३३ उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। जैसा लिखा है  
 देखो मैं सिन्धोन में एक ठेस लगने का पत्थर और  
 ठोकर खाने की चटान रखता हूं और जो उस पर  
 विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा ॥

**१०. हे** भाइयो मेरे मन की इच्छा और उन के  
 लिये परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे

२ उद्धार पाएं। क्योंकि मैं उन की गवाही देता हूं कि उन  
 को परमेश्वर के लिये धुन रहती है पर समझ के साथ  
 ३ नहीं। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान  
 होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न  
 ४ करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि  
 हर एक विश्वास करनेवाले के लिये धार्मिकता के निमित्त  
 ५ मसीह व्यवस्था का अन्त है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा  
 है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है  
 ६ चलता है वह इसी कारण जीता रहेगा। पर जो धार्मि-  
 कता विश्वास से है वह ये कहता है कि अपने मन में  
 यह न कहना स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा (यह तो मसीह को  
 ७ उतार लाने के लिये होता) या गहिराव में कौन उतरेगा  
 (यह तो मसीह को मरे हुएओं में से जिलाकर ऊपर लाने  
 ८ के लिये हांता) पर क्या कहता है यह कि वचन तेरे

निकट है तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही  
 विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि, यदि १  
 तू अपने मुंह से योशु को प्रभु जान कर मान ले और  
 अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुएओं में  
 से जिलाया तो तू उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के १०  
 लिये मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के  
 लिये मुंह से मान लिया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ११  
 यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह  
 लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं १२  
 इसलिये कि वह सब का प्रभु है और अपने सब (नाम)  
 लेनेवालों के लिये उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का १३  
 नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने ने १४  
 विश्वास नहीं किया उस का (नाम) क्योंकि लें और जिस  
 की नहीं सुनी उस पर क्योंकि विश्वास करें और प्रचा-  
 रक बिना क्योंकि सुनें। और यदि भेजे न जाए तो १५  
 क्योंकि प्रचार करें जैसा लिखा है कि उन के पांव क्या  
 ही सोहते हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं ॥

पर सब ने उस सुसमाचार पर कान न धरा। यशा- १६  
 याह कहता है कि हे प्रभु किस ने हमारे समाचार की  
 प्रतीति की है। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह १७  
 के वचन से होता है। पर मैं कहता हूं क्या उन्होंने ने १८  
 नहीं सुना। सुना तो सही (क्योंकि लिखा है कि) उन के  
 स्वर सारी पृथिवी पर और उन के वचन जगत की छोर  
 लों पहुंच गये हैं। फिर मैं कहता हूं क्या इस्राईली १९  
 न जानते थे। पहिले तो मूसा कहता है मैं उन के द्वारा  
 जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उजाऊंगा मैं एक  
 मूढ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह २०  
 बड़ा दियाव करके कहता है कि जो मुझे न ढूंढते थे  
 उन्हें मैं मिला जो मुझे पूछते न थे उन पर मैं प्रगट हो  
 गया। पर इस्राईल के विषय वह यह कहता है मैं २१  
 सारे दिन अपने हाथ एक आशा न मानने और विवाद  
 करनेवाली प्रजा की ओर पसारे रहा ॥

**११. सो** मैं कहता हूं क्या परमेश्वर ने अपनी  
 प्रजा को त्याग दिया। ऐसा न हो  
 मैं भी तो इस्राईली हूं इब्राहीम के वंश और बिन्यामीन के  
 गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं २  
 त्यागा जिसे उस ने पहिले से जाना। क्या तुम नहीं  
 जानते कि पवित्र शास्त्र एलियाह की कथा में क्या कहता  
 है कि वह इस्राईल के विरोध में परमेश्वर से बिनती  
 करता है। कि हे प्रभु उन्होंने ने तेरे नबियों को घात ३

किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला  
 ४ बच रहा हूँ और वे मेरे प्राण की खोज में हैं । परन्तु  
 परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला कि मैं ने अपने लिये  
 सात हजार पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाअल के  
 ५ आगे घुटने नहीं टेके । सो इस रीति से इस समय भी  
 ६ अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बच रहे हैं । यदि यह  
 अनुग्रह से है तो फिर कर्मों से नहीं नहीं तो अनुग्रह  
 ७ अब अनुग्रह नहीं रहा । सो क्या हुआ यह कि इसा-  
 ईली जिस की खोज में है वह उन को न मिला पर  
 चुने हुआ को मिला और बाकी लोग कठोर किये गए  
 ८ हैं । जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन  
 तक भारी नींद में डाल रक्खा है कि आँखों से न देखें  
 ९ और कानों से न सुनें । और दाऊद कहता है उन का  
 भोजन उन के लिये जाल और फन्दा और ठोकर और  
 १० बदले का कारण हो जाए । उन की आँखों पर अंधेरा  
 छा जाए कि न देखें और तू सदा उन की पीठ को  
 ११ मुकाए रख । सो मैं कहता हूँ क्या उन्होंने ने इसलिये  
 ठोकर खाई कि गिर पड़ें । ऐसा न हो पर उन के गिरने  
 के कारण अन्यजातियों को उद्धार मिला कि उन्हें इसका  
 १२ हो । पर यदि उन के गिरने से जगत का धन और उन  
 की घटी अन्यजातियों का धन हुआ तो उन की भरपूरी  
 से कितना न होगा ॥

१३ मैं तुम अन्यजातियों से कहता हूँ । जब कि मैं  
 अन्यजातियों के लिये प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की  
 १४ बड़ाई करता हूँ । कि किसी रीति से मैं अपने कुटुम्बियों  
 से हिंसका करवाकर उन में से कई एक का भा उद्धार  
 १५ कराऊँ । क्योंकि जब कि उन का त्याग दिया जाना  
 जगत के मिलाप का कारण हुआ तो क्या उन का ग्रहण  
 किया जाना मरे हुआ में से जी उठने के बराबर न होगा ।  
 १६ जब भेंट का पहिला पेड़ा पवित्र ठहरा तो सारा गुधा  
 हुआ आटा भी पवित्र है और जब कि जड़ पवित्र ठहरी  
 १७ तो डालियां भी । और यदि कई एक डाली तोड़  
 दी गई और तू जंगलों जलपाई होकर उन में साटा  
 गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी  
 १८ हुआ है तो डालियों पर घमण्ड न करना । और यदि  
 तू घमण्ड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं पर जड़  
 १९ तुम्हें सम्भालती है । फिर तू कहेगा डालियां इसलिये  
 २० तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊँ । भला वे तो अविश्वास  
 के कारण तोड़ी गई पर तू विश्वास से बना रहता है  
 २१ सो अभिमानी न हो पर भय कर । क्योंकि जब परमे-

(१) शू० । भारो नींद का आत्मा दिया ।

(२) या । की जगह ।

श्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ीं तो तुम्हें भी न  
 छोड़ेगा । सो परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख । २२  
 जो गिर गए उन पर कड़ाई पर तुम्ह पर यदि तू उस  
 की कृपा में बना रहे तो परमेश्वर की कृपा नहीं तो  
 तू भी काट डाला जाएगा । और वे भी यदि अविश्वास २३  
 में न रहें तो साटे जाएंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर  
 साट सकता है । क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो २४  
 स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध  
 अच्छी जलपाई में साटा गया तो ये जो स्वाभाविक  
 डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे ॥

हे भाइयो वहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप २५  
 को बुद्धिमान् समझ लो इसलिये मैं नहीं चाहता कि  
 तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्यजा-  
 तियों की पूरी पूरी भरती न हो तब तक इसाईल का  
 एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा । और इस रीति से २६  
 सारा इसाईल उद्धार पाएगा जैसा लिखा है कि  
 लुदानेवाला सिव्यान से आएगा और अर्भाक्त को  
 याकूब से दूर करेगा । और उन के साथ मेरी यही २७  
 वाचा होगी जब कि मैं उन के पापों को दूर करूंगा ।  
 वे सुसमाचार के भाव से तुम्हारे लिये बैरी हैं पर चुन २८  
 लिये जाने के भाव से बाप दादों के लिये प्यारे हैं । क्योंकि २९  
 परमेश्वर अपने बरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे  
 नहीं हटता । क्योंकि जैसे तुम ने पहिले परमेश्वर की ३०  
 आज्ञा न मानी पर अभी उन के आज्ञा न मानने  
 से तुम पर दया हुई । वैसे ही इन्होंने भी अब आज्ञा ३१  
 न मानी कि तुम पर जो दया होती है इस से उन पर  
 भी दया हो । क्योंकि परमेश्वर ने सब को आज्ञा ३२  
 न मानने में बन्द कर रक्खा कि सब पर दया करे ॥

आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान ३३  
 क्या ही गंभीर है । उस के विचार कैसे अथाह और  
 उस के मार्ग कैसे अगम हैं । प्रभु का मन किस ने जाना ३४  
 या उस का मंत्री कौन हुआ । या किस ने पहिले उसे ३५  
 दिया जिस का बदला उसे दिया जाय । क्योंकि उस की ३६  
 ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिये सब कुछ  
 है । उस की महिमा युगानुयुग होती रहे । आमीन ॥

१२. सो हे भाइयो मैं तुम से परमेश्वर की  
 दया के कारण बिनती करता हूँ कि  
 अपने शरीरों को जीविता और पवित्र और परमेश्वर  
 को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ । यह तुम्हारी  
 आत्मिक सेवा है । और इस संसार के सदृश न २

(१) या । मानसिक ।

बनो पर तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल-चलन बदलता जाए जिस से तुम्हें मालूम हो कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है ॥

- ३ क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा सम्भना चाहिए उस से बढ़कर कोई अपने आप को न समझे पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे । क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं । जैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं । और जब कि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न बरदान मिले तो जिस को नववृत्त का दान हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार बोले । यदि सेवा का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे यदि कोई सिखानेवाला हो तो सिखाने में लगा रहे । जो उपदेशक हों वह उपदेश देने में लगा रहे दान देनेवाला उदारता<sup>१</sup> से दे जो प्रधानता करे वह यतन से करे जो दया करे वह हर्ष से करे । प्रेम निष्कपट हो बुराई से घिन करो भलाई में लगे रहो । भाई-चारे के प्रेम से एक दूसरे पर मया रक्खो परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो । यतन करने में आलसी न हो आत्मिक जोश में भरे रहो प्रभु की सेवा करते रहो । आशा में आनन्दित रहो क्रेश में स्थिर रहे प्रार्थना में लगे रहे । पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उस में उन की सहायता करो पाहुनाई करने में लगे रहो । अपने सतानेवालों को आशिष दो आशिष दो स्थापन दो । आनन्द करनेवालों के साथ आनन्द करो और रोनेवालों के साथ रोओ । आपस में एक सा मन रक्खो अभिमान न हो पर दीनों के साथ संगति रक्खो अपने लेखे बुद्धमान न हो । बुराई के बदले किसी से बुराई न करो जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उन की चिन्ता किया करो । यदि हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल रक्खो । हे प्यारे अपना पलटा न लो पर क्रोध को जगह दो क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा । पर यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला क्योंकि ऐसा करने से तू उस के सिर पर आग के अगारों का ढेर लगाएगा । बुराई से न हारो पर भलाई से बुराई को जीत लो ॥

### १३. हर एक जन प्रधान अधिकारियों के

अधीन रहे क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं । इस से जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करनेवाले दण्ड पाएंगे । क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं पर बुरे काम के लिये डर का कारण है । यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उस की ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिये परमेश्वर का सेवक है । पर यदि तू बुराई करे तो डर क्योंकि वह तलवार व्यर्थ बांधता नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उस के क्रोध के अनुसार बुरे काम करनेवाले को दण्ड दे । इसलिये अधीन रहना न केवल उस क्रोध के कारण पर डर से बरन विवेक<sup>२</sup> के कारण अवश्य है । इसलिये कर भी दो क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं । सो हर एक का हक चुकाया करो जिसे कर चाहिए उसे कर दो जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो जिस से डरना चाहिए उस से हरो जिस का आदर करना चाहिए उस का आदर करो ॥

आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के क्रूरजदार न हो क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रक्खता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है । क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना खून न करना चोरी न करना लालच न करना और इन को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सार इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख । प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता इसलिये प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है ॥

और यह भी कि समय को पहचान कर अब तुम्हारे लिये नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची क्योंकि जिस समय हम ने विश्वास किया था उस समय के लेखे अब हमारा उद्धार निकट है । रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है इसलिये हम अंधेरे के कामों को तज कर उजाले के हाथियार बांध लें । जैसा दिन को सोहता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें न कि लीला क्रीड़ा और पियकड़पन न व्यभिचार और लुचपन में और न भगड़े और डाह में । बरन प्रभु यीशु मसीह को पहिन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने की चिन्ता न करो ॥

(१) या । सिधार्थ । (२) या । परमेश्वर का क्रोध ।

(३) मन या कांशंस ।

१४. जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो पर उस की शंकाओं पर २ विवाद करने के लिये नहीं । एक का विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है पर जो विश्वास में निर्बल है ३ वह साग पात ही खाता है । खानेवाला न खानेवाले को तुच्छ न जाने और न खानेवाला खानेवाले पर दोष न लगाए क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है । तू कौन ४ है जो दूसरे के टहलुए पर दोष लगाता है । वह अग्ने ही स्वामी के सामने खड़ा रहता है या गिरता है पर वह खड़ा कर दिया जायगा क्योंकि प्रभु उसे खड़ा रख सकता है । ५ कोई ता एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक से जानता है । हर एक अपने ६ ही मन में निश्चय कर ले । जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिये मानता है । जो खाता है वह प्रभु के लिये खाता है क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिये नहीं खाता ७ और परमेश्वर का धन्यवाद करता है । क्योंकि हम में से न कोई अपने लिये जीता और न कोई अपने लिये ८ मरता है । क्योंकि यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिये जीते हैं और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिये मरते हैं सो ९ हम जीए या मरें तो प्रभु ही के हैं । क्योंकि मसीह इसी लिये मरा और जी गया कि वह मरे हुआँ और जीवितों १० दोनों का प्रभु हो । तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है । हम सब के सब परमेश्वर के न्यायसहायन के सामने खड़े ११ होंगे । क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सोह कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक १२ जीव परमेश्वर को मान लेगी । सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा ॥ १३ सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस १४ या ठोकर खाने का कारण न रखे । मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं पर जो उस को अशुद्ध समझता है १५ उस के लिये अशुद्ध है । यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता । जिस के लिये मसीह मरा उस को तू अपने १६ भोजन के द्वारा नाश न कर । सो तुम्हारी भलाई की १७ निन्दा न होने पाए । क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं पर धर्म और मिलाप और वह आनन्द है जो १८ पवित्र आत्मा से होता है । और जो कोई इस रीति से

(१) यू० । में ।

मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है । इसलिये हम उन बातों १९ का यतन करें जिन से मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो । भोजन के लिये परमेश्वर का काम न बिगाड़ । सब २० कुछ शुद्ध तो है पर उस मनुष्य के लिये बुरा है जिस को उस के भोजन करने से ठोकर लगती है । भला यह है कि २१ तू न मांस खाए न दाखरस पीए न और कुछ ऐसा करे जिस से तेरा भाई ठोकर खाए । तेरा जो विश्वास है उसे २२ परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख । धन्य वह है जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को देगी नहीं ठहराता । पर जो सन्देह करके खाता है वह २३ दण्ड के योग्य ठहर चुका क्योंकि वह निश्चय के संग नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है ॥

१५. निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें न कि अपने आप को प्रसन्न करें । हम में से हर एक २ अपने पड़ोसी को उस की भलाई के लिये सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे । क्योंकि मसीह ने अपने आप को ३ प्रसन्न न किया पर जैसा लिखा है कि तेरे निन्दकों की निन्दा मुझ पर आ पड़ी । जितनी बातें पहिले लिखी ४ गईं वे हमारी शिक्षा के लिये लिखी गईं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शान्ति के द्वारा आशा रखें । और धीरज और शान्ति का दाता पर- ५ मेश्वर तुम्हें यह वर दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो । कि तुम एक मन और एक मुँह ६ होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की महिमा करो । इसलिये जैसे मसीह ने भी परमेश्वर ७ की महिमा के लिये तुम्हें ग्रहण किया है वैसे ही तुम एक दूसरे को ग्रहण करो । मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं ८ बापदादों को दी गईं थीं उन्हें दृढ़ करने को मसीह परमेश्वर की सन्नाई के लिये खतना किये हुए लोगों का सेवक बना । और अन्यजाति भी दया के कारण परमे- ९ श्वर की महिमा करें जैसा लिखा है इसलिये मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम के भजन गाऊँगा । फिर कहा है हे जाति जाति के सब लोगों उस १० की प्रजा के साथ आनन्द करो । और फिर हे जाति ११ जाति के सब लोगो प्रभु की स्तुति करो और हे राज्य राज्य के सब लोगो उसे सराहो । और फिर यशायाह १२ कहता है यिश्की की एक जड़ होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिये एक उठेगा उस पर अन्य जाति

(२) यू० । निश्चय ।

- १३ आशा रखेंगे । आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनन्द और शान्ति से भरपूर कर कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए ॥
- १४ हे मेरे भाइयों मैं आप भी तुम्हारे विषय निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और सारे ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिन्ता सकते हो । तौभी मैंने कहीं कहीं सुधि दिलाने के लिये तुम्हें जो बहुत द्रियाव करके लिखा यह उस अनुग्रह के कारण
- १६ हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है । कि मैं अन्य जातियों के लिये मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक का नाई करूँ जिस से अन्य जातियों का चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र
- १७ बनकर ग्रहण किया जाए । सो उन बातों के विषय जो परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हैं मैं मसीह यीशु में बढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय कहने का द्रियाव नहीं जो मसीह ने अन्यजातियों की अधीनता के लिये बचन और कर्म,
- १९ और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए । यहां तक कि मैं ने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया ।
- २० पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम न लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊँ ऐसा न हो कि दूसरे की नेत्र पर धर बनाऊँ । पर जैसा लिखा है वैसाही हो कि जिन्हें उस का सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने ने नहीं सुना वे ही समझेंगे ॥
- २२ इसी लिये मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा । पर अब मुझे इन देशों में और जगह नहीं रही और बहुत बरसों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है । इसलिये जब इसरानिया को जाऊँ तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊँ क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुम से भेंट करूँ और जब तुम्हारी संगति से कुछ मेरा जी भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा दो । पर अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिये यरूशलेम का जाता हूँ । क्योंकि मकिदुनिया और अखिया के लोगों का यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिये कुछ चन्दा करें । अच्छा तो लगा पर वे उन के करजदार भी हैं क्योंकि यदि अन्य जाति उन की आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उन की सेवा करें । सो यह काम पूरा करके और

उन को यह चन्दा सौंपकर मैं तुम्हारे पास होता हुआ इसरानिया को जाऊंगा । और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशिष के साथ आऊंगा ॥

और हे भाइयों मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिला कर तुम से विनती करता हूँ कि मेरे लिये परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौतीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूँ और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिये है पवित्र लोगों को भाए । और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनन्द के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊँ । शान्ति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे । आमीन ॥

१६. मैं तुम से फीबेकी जो हमारी बहिन और किंखिया की मण्डली की सेविका है सिफारिश करता हूँ । कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों का चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और जिस किसी बात में उस को तुम से प्रयोजन हो उस की सहायता करो । क्योंकि वह भी बहुतों की बरन मेरी भी उपकारिणी हुई है ॥

प्रिसका और अक्विला को जो यीशु में मेरे सहकर्मी हैं नमस्कार । उन्होंने मेरे प्राण के लिये अपना ही मिर दे रक्खा था और मैं ही नहीं बरन अन्यजातियों की सारी मण्डलियां भी उन का धन्यवाद करती हैं । और उस मण्डली को भी नमस्कार जो उन के घर में है । मेरे प्यारे इपेनितुस को जो मसीह के लिये आसिया का पहला पल है नमस्कार । भरयम को जिस ने तुम्हारे लिये बहुत परिश्रम किया नमस्कार । अन्नुनिकुम और यूनियास को जो मेरे कुटुम्बी हैं और मेरे साथ ऊँद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझ से पहले मसीह में हुए थे नमस्कार । अम्पलियातुस को जो प्रभु में मेरा प्यारा है नमस्कार । उरवानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्यारे इस्तखुस को नमस्कार । अगिल्लेव को जो मसीह में खरा निकला नमस्कार । अरस्तुलुस के घगने को नमस्कार । मेरे कुटुम्बी हेरोदियान को नमस्कार । नरकिस्तुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं उन को नमस्कार । ब्रूफैना और ब्रूफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं नमस्कार । प्यारी प्रिसिस को जिस ने प्रभु में बहुत परिश्रम किया नमस्कार । रूफुस को जो प्रभु में चुना है और उस की माता जो मेरी भी है दोनों को नमस्कार । अरसुकितुस और फिलगोन और दिमेंस और पनुयास १४

- और हिर्मास और उन के साथ के भाइयों को नमस्कार ।  
 १५ फिल्लुगुस और यूलिया और नेर्युस और उस की बहिन  
 और उलुम्पास और उन के साथ के सब पवित्र लोगों  
 १६ को नमस्कार । आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार  
 करो । तुम को मसीह की सारी मण्डलियों की ओर से  
 नमस्कार ॥  
 १७ अब हे भाइयो मैं तुम से बिनती करता हूँ कि जो  
 लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुम ने पाई है फूट  
 पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं उन्हें ताड़  
 १८ लिया करो और उन से किनारा करो । क्योंकि ऐसे लोग  
 हमारे प्रभु मसीह की नहीं पर अपने पेट की सेवा करते  
 हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के  
 १९ लोगों को बहका देते हैं । तुम्हारे आज्ञा मानने की  
 चर्चा सब लोगों में फैल गई है इसलिये मैं तुम्हारे  
 विषय आनन्द करता हूँ पर मैं यह चाहता हूँ कि तुम  
 भलाई के लिए बुद्धिमान् पर बुराई के लिये भोले बने  
 २० रहो । शान्ति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से  
 शीघ्र कुचलवा देगा ॥

हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर  
 होता रहे<sup>१</sup> ॥

तीमुथियुस मेरे सहकर्मी का और लूकियुस और २१  
 यासेन और सेक्सिप्युस मेरे कुटुम्बियों का तुम को  
 नमस्कार । मुझ पत्रों के लिखनेवाले तिरतियुस का प्रभु २२  
 में तुम को नमस्कार । ग्युस का जो मेरी ओर सारी २३  
 मण्डली का पशुनाई करनेवाला है उस का तुम्हें नम-  
 स्कार । इरास्तुस जो नगर का भण्डारी है और भाई  
 क्वारतुस का तुम को नमस्कार<sup>२</sup> ॥

अब जो तुम को मेरे सुसमाचार और यीशु २५  
 मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता  
 है उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो मनातन से  
 छिपा रहा, पर अब प्रगट होकर सनातन परमेश्वर की २६  
 आज्ञा से नबियों की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को  
 बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा माननेवाले  
 हो जाएँ, उसी अद्वैत बुद्धिमान् परमेश्वर की यीशु २७  
 मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे । आमीन ॥

(१) यह वाक्य पहिले २४ पद गिना जाता था । सब में पुराने  
 हरनलेखों में इसी जगह लिखा हुआ है ।

(२) देखो २० पद का ।

## कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री ।

१. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की  
 इच्छा से यीशु मसीह का  
 प्रेरित होने के लिये बुलाया गया और भाई सेस्थिनेस  
 २ की ओर से, परमेश्वर की उस मण्डली के नाम जो  
 कुरिन्थुस में है अर्थात् उन के नाम जो मसीह यीशु में  
 पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिये बुलाए गए  
 हैं और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे  
 और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना  
 करते हैं ॥  
 ३ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की  
 ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥  
 ४ मैं तुम्हारे विषय अपने परमेश्वर का धन्यवाद  
 सदा करता हूँ इसलिये कि परमेश्वर का यह अनुग्रह  
 ५ तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उस में तुम हर बात

में अर्थात् सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए  
 कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली । यहां तक ६,७  
 कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु  
 यीशु मसीह के प्रगट होने की बाट जोहते रहते हो । वह ८  
 तुम्हें अन्त तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु  
 मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो । परमेश्वर सच्चा<sup>१</sup> है ९  
 जिस ने तुम को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की  
 संगति में बुलाया है ॥

हे भाइयो, मैं तुम से हमारे प्रभु यीशु मसीह के १०  
 नाम के द्वारा बिनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात  
 कहो और तुम में फूट न हो पर एक ही मन और एक ही  
 मत होकर मिले रहो । क्योंकि हे मेरे भाइयो खलोए के ११  
 घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय बताया है कि

(१) यू० विश्वास योग्य ।



- १२ तुम में भगड़े हो रहे हैं । मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कोई अपुल्लोस का
- १३ कोई केफा का कोई मसीह का कहता है । क्या मसीह बट गया क्या पौलुस तुम्हारे लिये क्रूस पर चढ़ाया गया
- १४ या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिसमा मिला । मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्तुस और गयुस को छोड़ मैं ने तुम में से किसी को बपतिसमा नहीं दिया । ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर
- १५ बपतिसमा मिला । और मैं ने स्तिफनास के घराने को भी बपतिसमा दिया इन को छोड़ मैं नहीं जानता कि
- १७ मैं ने और किसी को बपतिसमा दिया । क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिसमा देने को नहीं बरन सुसमाचार सुनाने को भेजा और यह भी बातों के ज्ञान के अनुसार नहीं न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे ॥
- १८ क्योंकि क्रूस की कथा नाश होनेवालों के निकट मूर्खता है पर हम उद्धार पानेवालों के निकट परमेश्वर
- १९ की सामर्थ्य है । क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा । कहां रहा ज्ञानवान् कहां रहा शास्त्री कहां इस संसार का विवादी । क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया । क्योंकि जब कि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करनेवालों को उद्धार दे । यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं । पर हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य-जातियों के निकट मूर्खता है । पर जो बुलाए हुए हैं क्या यहूदी क्या यूनानी उन के निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है । क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान् है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान् है ॥
- २६ हे भाइयो अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान् न बहुत सामर्थ्य न बहुत कुलीन बुलाए गए । परन्तु परमेश्वर ने जगत के मुखों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे । और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को बरन जो हैं भी नहीं चुन लिया
- २९ कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए । कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमण्ड न करे । उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हुए हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिये

ज्ञान और धर्म और पवित्रता और छुटकारा हुआ है । कि जैसा लिखा है जो घमण्ड करे वह प्रभु के विषय ३१ घमण्ड करे ॥

२. हे भाइयो जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया

तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया । क्योंकि मैं ने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह बरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूँ । और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत धरधराता हुआ तुम्हारे साथ रहा । और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभानेवाली बातें नहीं पर आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था । इस लिये कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परन्तु परमेश्वर की सामर्थ्य पर हो ॥

फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं पर इस संसार का और इस संसार के नाश होनेवाले हाकिमों का ज्ञान नहीं । पर हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिये ठहराया । जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने न जाना क्योंकि यदि जानते तो तेजो-मय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते । पर जैसा लिखा है कि जो आंग ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ीं वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखनेवालों के लिये तैयार की हैं । परन्तु परमेश्वर ने उन को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रगट किया क्योंकि आत्मा सब बातें बरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है । मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है केवल मनुष्य का आत्मा जो उस में है वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता केवल परमेश्वर का आत्मा । पर हम ने संसार का आत्मा नहीं पर वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं । जिन को हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं पर आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं । परन्तु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उस के लेखे मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता क्योंकि उन की जांच आत्मिक रीति से होती है । आत्मिक जन सब कुछ जांचता है पर वह आप

१६ किसी से जांचा नहीं जाता । क्योंकि प्रभु का मन किस ने जाना है कि उसे सिखाए । पर हम में मसीह का मन है ॥

३. हे भाइयो मैं तुम से इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से पर जैसे शारीरिक लोगों से और उन से जो मसीह में बालक हैं । मैं ने तुम्हें दूध पिलाया अन्न न खिलाया क्योंकि तुम उस को न खा सकते थे बरन अब तक भी न खा सकते हो । क्योंकि अब तक शारीरिक हो इस लिये कि जब कि तुम में डाह और भगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते । इसलिये कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूं तो क्या तुम मनुष्य नहीं । तो अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या केवल सेवक जिन के द्वारा तुम ने विश्वास किया जैसा ६ हर एक को प्रभु ने दिया । मैं ने लगाया अपुल्लोस ने ७ सींचा परन्तु परमेश्वर ने बढ़ाया । सो न तो लगाने-वाला कुछ है और न सींचनेवाला परन्तु परमेश्वर जो बढ़ानेवाला है । लगानेवाला और सींचनेवाला दोनों एक हैं पर हर एक जन अपने ही परिश्रम के अनुसार ९ अपनी ही मज़दूरी पाएगा । क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मियों हैं तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो ॥

१० परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैं ने बुद्धिमान् राज की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है पर हर एक मनुष्य चौकस ११ रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है । क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है १२ कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता । और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ १३ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा इस लिये कि आग के साथ प्रगट होगा और वह आग हर १४ एक का काम परखेगी कि कैसा है । यदि किसी का काम जो उस ने बनाया है ठहरेगा तो वह मज़दूरी पाएगा । १५ यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा पर वह आप बचेगा पर ऐसे जैसे कोई आग के बीच से होकर बचे ॥

१६ क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मन्दिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बास

करता है । यदि कोई परमेश्वर के मन्दिर को नाश १७ करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा क्योंकि परमेश्वर का मन्दिर पवित्र है और वह तुम हो ॥

कोई अपने आप को धोखा न दे । यदि तुम में १८ से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए । क्योंकि [ लिखा है ] १९ इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उन की चतुराई में फंसा देता है । और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिन्ताओं को २० जानता है कि व्यर्थ हैं । सो मनुष्यों पर कोई घमण्ड २१ न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है । क्या पौलुस क्या अपुल्लोस क्या केफा क्या जगत क्या जीवन क्या मरण क्या वर्त्तमान क्या भविष्य, सब तुम्हारा है और तुम २२ मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है ॥

४. मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भण्डारी समझे । फिर यहां भण्डारी में यह बात देखी जाती है २ कि विश्वास योग्य निकले । पर मेरे लेखे यह बहुत छोटी ३ बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे बरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता । क्योंकि ४ मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता । पर इस से मैं निर्दोष नहीं ठहरता पर मेरा परखनेवाला प्रभु है । सो जब तक प्रभु न आए समय से पहिले ५ किसी बात का न्याय न करो । वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनो की मर्तियों को प्रगट करेगा तब परमेश्वर की ओर से हर एक की सराहना होगी ॥

हे भाइयो मैं ने इन बातों में तुम्हारे लिये अपनी ६ और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टान्त की राति पर की है इस-लिये कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में दूसरे के विरोध में न ७ फूलना । क्योंकि तुम में और दूसरे में कौन भेद करता है । और तरे पास क्या है जो तू ने [दूसरे से] नहीं ८ पाया । और जब कि तू ने [दूसरे से] पाया है तो ऐसा घमण्ड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया । तुम तो तृप्त हो चुके तुम धनी हो चुके तुम ने हमारे बिना राज्य किया, पर मैं चाहता हूं कि तुम राज्य करते कि हम भी ९ तुम्हारे साथ राज्य करते । मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के पीछे उन लोगों की नाई ठहराया है जिन की मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो क्योंकि हम

जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा  
 १० ठहरे। हम मसीह के लिये मूर्ख हैं पर तुम मसीह में  
 बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं पर तुम बलवान् हो। तुम  
 ११ आदर पाते हो पर हम निरादर होते हैं। हम इसी घड़ी  
 तक भूखे प्यासे और नगे हैं और घूसे खाते और मारें  
 मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परि-  
 १२ श्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं हम आशिष देते हैं  
 १३ वे सताते हैं हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं हम  
 बिनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब  
 वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे ॥

१४ मैं तुम्हें लज्जित करने के लिये ये बातें नहीं  
 लिखता पर अपने प्यारे बालक जानकर तुम्हें चिंताता  
 १५ हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखानेवाले दस  
 हजार भी होते तभी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं इस  
 लिये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा  
 १६ पिता हुआ। सो मैं तुम से बिनती करता हूँ कि मेरी  
 १७ सी चाल चलो। इसलिये मैं ने तीमुथियुस को जो प्रभु  
 में मेरा प्यारा और विश्वासी पुत्र है तुम्हारे पास भेजा  
 है और वह तुम्हें मसीह में मेरी चाल स्मरण कराएगा  
 जैसे कि मैं हर जगह हर एक मण्डली में उपदेश  
 १८ करता हूँ। कितने तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं  
 १९ तुम्हारे पास आने ही का नहीं। पर प्रभु चाहे तो मैं  
 तुम्हारे पास शीघ्र आऊँगा और उन फूले हुआँ की बातों  
 २० को नहीं पर उन का सामर्थ्य का जान लूँगा। क्योंकि  
 परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है।  
 २१ तुम क्या चाहते हो मैं छुड़ी लेकर या प्रेम और  
 नम्रता के आत्मा के साथ तुम्हारे पास आऊँ ॥

६. यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम

में व्यभिचार होता है बरन ऐसा  
 व्यभिचार जो अन्यजातियों में भी नहीं होता कि एक  
 २ मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम  
 शोक तो नहीं करते जिस से ऐसा काम करनेवाला  
 ३ तुम्हारे बीच में से निकाला जाता पर फूल गए हो। मैं  
 तो शरीर के भाव से दूर था पर आत्मा के भाव से  
 तुम्हारे साथ होकर मानो साथ होकर ऐसे काम करने  
 ४ वाले के विषय यह आशा दे चुका हूँ कि, जब तुम  
 और मेरा आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ  
 इकट्ठे हों तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से,  
 ५ शरीर के विनाश के लिये शैतान को सौंपा जाए कि  
 उस का आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए।  
 ६ तुम्हारा घमण्ड करना अच्छा नहीं क्या तुम नहीं  
 जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूँधे हुए आटे को

खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने ७  
 आप को शुद्ध करो कि नया गंधा हुआ आटा बन  
 जाओ कि तुम अखमीरी हो क्योंकि हमारा फसह जो  
 मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव करें ८  
 न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के  
 खमीर से पर सीधाई और सच्चाई के अखमीरी  
 रोटी से ॥

मैं ने अपनी पत्नी में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों ९  
 की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिलकुल इस १०  
 जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करनेवालों  
 या मूर्त्ति पूजकों की संगति न करो क्योंकि इस दशा  
 में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा ११  
 कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी  
 या लोभी या मूर्त्ति पूजक या गाली देनेवाला या  
 पियक्कड़ या अंधेर करनेवाला हो तो उस की संगति न  
 करना बरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना।  
 क्योंकि मुझे बाहरवालों का न्याय करने से क्या १२  
 काम। क्या तुम भीतरवालों का न्याय नहीं करते।  
 पर बाहरवालों का न्याय परमेश्वर करता है। सो उस १३  
 कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो ॥

६. क्या तुम में से किसी को यह दियाव

है कि जब दूसरे के साथ भगड़ा  
 हो तो फैसले के लिये अधर्मियों के पास जाए और  
 पवित्र लोगों के पास न जाए। क्या तुम नहीं जानते कि २  
 पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे सो जब तुम्हें जगत  
 का न्याय करना है तो क्या छोटे से छोटे भगड़ों का भी  
 फैसला करने के योग्य नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि ३  
 हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो क्या सांसारिक बातों  
 का फैसला न करें। सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का ४  
 फैसला करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो मण्डली  
 में कुछ नहीं समझे जाते हैं। मैं तुम्हें लजाने के लिये ५  
 कहता हूँ। क्या ऐसा है कि तुम में एक भी बुद्धिमान्  
 नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके।  
 बरन भाई भाई में मुकद्दमा होता है और वह भी ६  
 अविश्वासियों के सामने। सो सचमुच तुम में बड़ा दोष  
 यह है कि आपस में मुकद्दमा करते हो बरन अन्याय ७  
 क्यों नहीं सहते ठगाई क्यों नहीं सहते। पर अन्याय ८  
 करते और ठगते हो और वह भी भाइयों को। क्या तुम ९  
 नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के  
 वारिस न होंगे। धोखा न खाओ न बेश्यागामी न मूर्त्ति-  
 पूजक न परस्त्रीगामी न लुब्धे न पुरुषगामी, न चोर न १०  
 लोभी न पियक्कड़ न गाली देनेवाले न अंधेर करनेवाले

- ११ परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे । और तुम में से कितने ऐसे ही थे पर तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे ॥
- १२ सब वस्तुएं मेरे लिये उचित तो हैं पर सब वस्तुएं लाभ की नहीं सब वस्तुएं मेरे लिये उचित हैं पर मैं
- १३ किसी बात के अधीन न हूंगा । भोजन पेट के लिये और पेट भोजन के लिये है परन्तु परमेश्वर इस को और उस को दोनों को नाश करेगा पर देह व्यभिचार के लिए
- १४ नहीं बरन प्रभु के लिये और प्रभु देह के लिये है । और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु का जिलाया और हमें
- १५ भी जिलाएगा । क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं । सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर
- १६ उन्हें वेश्या के अंग बनाऊ ऐसा न हो । क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उस के साथ एक तन हो जाता है क्योंकि वह कहता
- १७ है कि वे दोनों एक तन होंगे । और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उस के साथ एक आत्मा हो जाता है ।
- १८ व्यभिचार से बचे रहो जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं पर व्यभिचार करनेवाला अपनी
- १९ ही देह के विरुद्ध पाप करता है । क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्रात्मा का मन्दिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है
- २० और तुम अपने नहीं हो । क्योंकि दाम देकर मोल लिये गए हो सो अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो ॥

### ७. उन बातों के विषय जो तुम ने लिखीं

- यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न
- २ छुए । पर व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी
- ३ और हर एक स्त्री का पति हो । पति अपनी पत्नी का हक
- ४ पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का । पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उस के पति का अधिकार है वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार
- ५ नहीं पर पत्नी को । तुम एक दूसरे से अलग न रहो पर केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिये अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो ऐसा न
- ६ हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे । पर मैं जो यह कहता हूँ तो अनुमति देता हूँ आज्ञा नहीं
- ७ देता । मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हों पर हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष

(१) यू० पवित्रस्थान ।

विशेष वरदान मिले हैं किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का ॥

पर मैं बिन ब्याहों और विधवाओं के विषय ८ कहता हूँ कि उन के लिये ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ । पर यदि वे संयम न कर सकें तो ब्याह करें ९ क्योंकि ब्याह करना कामातुर रहने से मला है । जिन का १० ब्याह हो गया है उन को मैं नहीं बरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो । (और यदि अलग ११ भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले) और न पति अपनी पत्नी को छोड़े । दूसरों से प्रभु नहीं पर मैं ही कहता हूँ यदि कि कोई भाई १२ को पत्नी विश्वास न रखती हो और उस के साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े । और जिग खी का पति १३ विश्वास न रखता हो और उस के साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को न छोड़े । क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास १४ न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होने पर अब तो वे पवित्र हैं । पर जो विश्वास नहीं १५ रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो ऐसी दशा में कोई भाई या बहिन बन्धन में नहीं और परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिये बुलाया है । क्योंकि हे १६ स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले । पर जैसा प्रभु ने हर एक को १७ बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसे ही वह चले । और मैं सब मण्डलियों में ऐसा ठहराता हूँ । कोई स्वतना किया हुआ बुलाया गया हो तो १८ वह स्वतनारहित न बने । कोई स्वतनारहित बुलाया गया हो तो वह स्वतना न कराये । न स्वतना कुछ है और १९ न बिन स्वतना परन्तु परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना ही सब कुछ है । हर एक जन जिस दशा में बुलाया २० गया हो उसी में रहे । क्या तू दास की दशा में बुलाया २१ गया तो चिन्ता न कर पर यदि तू स्वतंत्र हो भी सके तो इसी का काम में ला । क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु २२ में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है । तुम दाम देकर मोल लिये गये हो २३ मनुष्यों के दास न बनो । हे भाइयों जो कोई जिस दशा २४ में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे ॥

कुवारियों के विषय प्रभु की, कोई आज्ञा मुझे नहीं २५ मिली पर विश्वासी होने के लिये जैसी प्रभु ने मुझ पर

- २६ दया की है उस के अनुसार मति देता हूँ। सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल के क्लेश के कारण
- २७ मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरे पत्नी है तो उस से अलग होने का यत्न न कर और यदि तेरे पत्नी नहीं।
- २८ तो पत्नी की खाज न कर। पर यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं और यदि कुंवारी ब्याही जाय तो पाप नहीं पर ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं तुम्हें
- २९ बचाना चाहता हूँ। हे भाइयो मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है इसलिये चाहिए कि जिन के पत्नी
- ३० हों वे ऐसे हों मानो उन के पत्नी नहीं। और रोनेवाले ऐसे हों मानों रोते नहीं और आनन्द करनेवाले ऐसे हों मानों आनन्द नहीं करते और मोल लेनेवाले
- ३१ ऐसे हों कि मानो उम के पास कुछ नहीं। और इस संसार के बरतनेवाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो लें। क्योंकि इस संसार के रीति व्यवहार बदलते
- ३२ जाते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिन्ता न हो। बिन ब्याहा पुरुष प्रभु की बातों की चिन्ता में रहता
- ३३ है कि प्रभु को क्योंकर प्रसन्न रखे। पर ब्याहा हुआ मनुष्य संसार की बातों की चिन्ता में रहता है
- ३४ कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। ब्याही और बिन ब्याही में भी भेद है। बिन ब्याही प्रभु की चिन्ता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो पर ब्याही संसार की चिन्ता में रहती है कि
- ३५ अपने पति को प्रसन्न रखे। यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिये कहता हूँ और न कि तुम्हें फंसाने के लिये बरन इसलिये कि जैसा सोहता है वैसा ही किया जाए कि
- ३६ तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। और यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिस की जवानी ढल चली है और प्रयोजन भी होए तो जैसा चाह वैसा करे इस में पाप नहीं वह उस का
- ३७ ब्याह होने दे<sup>३</sup>। पर जो मन में हड़ रहता है और उस को प्रयोजन न हो बरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता है और अपने मन में यह बात टान ली हो कि मैं अपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याही
- ३८ रखूंगा वह अच्छा करता है। सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है वह अच्छा करता है और जो ब्याह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है।
- ३९ जब तक किसी स्त्री का पति जीता रहता है तब तक वह उस से बंधी हुई है पर जब उस का पति मर जाए

(१) या यदि तू पत्नी से छूट गया है। (२) यू० उसे अधिक न बरते। (३) यू० वे ब्याह जाएं।

तो जिस से चाहे ब्याह कर सकती है पर केवल प्रभु में। पर यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है ४० और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है ॥

८. अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय—हम जानते हैं कि हम सब का ज्ञान है। ज्ञान फुलाता है पर प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। पर यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय—हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथिवी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं (जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं), तौभी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है अर्थात् पिता जिस की ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिये हैं और एक ही प्रभु है अर्थात् यीशु मसीह जिस के द्वारा सब वस्तुएं हुईं और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सब का यह ज्ञान नहीं पर कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझ कर खाते हैं और उन का विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। पर चौकस रहे ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिये ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुम्हें ज्ञानी को मूर्त के मन्दिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो तो क्या उस के विवेक में मूर्त के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव न हो जाएगा। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिस के लिये मसीह मरा नाश हो जाएगा। तो भाइयों का अपराध करने से और उन के निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा न हो कि मैं अपने भाई को ठोकर खिलाऊं ॥

९. क्या मैं स्वतंत्र नहीं। क्या मैं प्रेरित नहीं। क्या मैं ने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए

(४) मन या कांशंस।

२ नहीं । यदि मैं औरों के लिये प्रेरित नहीं तौभी तुम्हारे लिये तो हूँ क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर  
 ३ छाप हो । जो मुझे जांचते हैं उन के लिये यही मेरा उत्तर  
 ४,५ है । क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं । क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहिन को ब्याह कर  
 लिए फिरँ जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और केफा  
 ६ करते हैं । या केवल मुझे और बरनबा को अधिकार नहीं  
 ७ कि कमाई करना छोड़ें । कौन कर्मा अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है । कौन दाग्य की बारी लगाकर उस का फल नहीं खाता । कौन भेड़ों की रख-  
 ८ वाली करके, उन का दूध नहीं पीता । क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ । क्या व्यवस्था भी  
 ९ यही नहीं कहती । क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना । क्या  
 १० परमेश्वर बैलों ही की चिन्ता करता है । या विशेष करके हमारे लिये कहता है । हाँ हमारे लिये ही लिखा गया क्योंकि उचित है कि जोतनेवाला आशा से जोते और  
 ११ दावनेवाला भागी होने की आशा से दावनी करे । सो जब कि हम ने तुम्हारे लिये आत्मिक वस्तुएं बोई तो क्या यह  
 १२ कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुएं लवें । जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इस से अधिक न होगा । पर हम यह अधिकार काम में न लाएं पर सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार  
 १३ की कुछ रोक न हो । क्या तुम नहीं जानते कि जो मन्दिर की सेवा करते हैं वे मन्दिर में से खाते हैं और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होने हैं ।  
 १४ इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार  
 १५ सुनाते हैं उन की जीविका सुसमाचार से हो । पर मैं इन में से कोई बात काम में न लाया और मैं ने तो ये बातें इसलिये नहीं लिखीं कि मेरे लिये ऐसा किया जाए क्योंकि इस से मेरा मरना भला है कि कोई मेरा  
 १६ घमण्ड व्यर्थ ठहराए । और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊँ तो मेरा कुछ घमण्ड नहीं क्योंकि यह तो मेरे लिये अवश्य है और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊँ तो मुझ पर  
 १७ हाय । क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मज़दूरी मुझे मिलती है और यदि अपनी इच्छा से नहीं  
 १८ करता तौभी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है । सो मेरी कौन सी मज़दूरी है । यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार संत में कर दूँ यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उस को मैं पूरी रीति से काम में लाऊँ । क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैं ने अपने आप को सब का दास बना दिया है कि अधिक

लोगों को खींच लाऊँ । मैं यहूदियों के लिये यहूदी बना २० कि यहूदियों को खींच लाऊँ जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उन के लिये मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊँ । व्यवस्थाहीनों के लिये मैं जो परमेश्वर की २१ व्यवस्था से हीन नहीं पर मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊँ । मैं निर्बलों के लिये निर्बल सा बना कि निर्बलों २२ को खींच लाऊँ मैं सब मनुष्यों के लिये सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊँ । और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिये करता हूँ २३ कि औरों के साथ उस का भागी हो जाऊँ । क्या तुम २४ नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सब ही हैं पर इनाम एक ही ले जाता है । तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो । और हर २५ एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है वे तो एक मुरझानेवाले मुकुट पाने के लिये यह करते हैं पर हम उस मुकुट के लिये करते हैं जो मुरझाने का नहीं । सो २६ मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ पर बैठकाने नहीं मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ पर उस का नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है । पर मैं अपनी देह को २७ मारता कूटता और बश में लाता हूँ ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूँ ॥

१०. हे भाइयो मैं नहीं चाहता कि तुम इस से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार गये । और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा २ का बपतिसमा लिया । और सब ने एक ही आत्मिक ३ भोजन किया । और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया ४ क्योंकि वे उस आत्मिक चटान से पीते थे जो उन के साथ साथ चलती थी और वह चटान मसीह था । परन्तु परमेश्वर उन में के बहुतेगों से प्रमत्त न हुआ सो ५ वे जङ्गल में ढेर हो गये । ये बातें हमारे लिये दृष्टान्त ६ टहराईं कि जैसे उन्होंने ने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें । और न तुम मूरत पूजने- ७ वाले बनो जैसे कि उन में कितने बन गए थे जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और चलने कूदने उठे । और न हम व्यभिचार करें जैसा उन में से कितनों ने ८ किया और एक दिन में तेईस हजार मर गए । और न ९ हम प्रभु को परखें जैसा उन में से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए । और न तुम कुड़- १० कुड़ाओ जिस रीति से उन में से कितने कुड़कुड़ाए और

- ११ नाश करनेवाले के द्वारा नाश किए गए । पर ये सब बातें जो उन पर पड़ीं दृष्टान्त की रीति पर थीं और वे हमारी चिन्तावनी के लिये लिखी गईं जो जगत के अन्त १२ समय में रहते हैं । इसलिये जो समझता है कि मैं १३ स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि गिर न पड़े । तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है और परमेश्वर सच्चा है, जो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा बरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको ॥
- १४ इस कारण हे मेरे प्यारो मूर्ति पूजा से बचे रहो । १५ मैं बुद्धिमान जानकर तुम से कहता हूँ । जो मैं कहता १६ हूँ उसे तुम परखो । वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नहीं वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं । इसलिये कि एक रोटी है सो हम जो बहुत हैं एक देह हैं क्योंकि हम सब उस १८ एक रोटी के भागी होते हैं । जो शरीर के भाव से ईसाईली हैं उन को देखो । क्या बलिदानों के खानेवाले १९ बेदी के सहभागी नहीं । सो मैं क्या कहता हूँ क्या यह २० कि मूरत का बलिदान कुछ है वा मूरत कुछ है । नहीं पर यह कि अन्यजाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिये नहीं पर दुष्टात्माओं के लिये बलिदान करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी २१ हो । तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते तुम प्रभु की मेज़ और दुष्टात्माओं की मेज़ दोनों के सामी नहीं हो सकते । क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं । क्या हम उस से शक्तिमान हैं ॥
- २३ सब वस्तुएं उचित तो हैं पर सब लाभ की नहीं सब वस्तुएं मेरे लिये उचित तो हैं पर सब वस्तुओं से उन्नति २४ नहीं । कोई अपना ही भलाई को न ढूँढ़े बरन औरों की । २५ जो कुछ क्रस्माइयों के यहां विकता है वह खाओ और विवेक २६ के कारण कुछ न पूछो । क्योंकि पृथिवी और उस की २७ भरपूरी प्रभु की है । और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रक्खा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न २८ पूछो । पर यदि कोई तुम से कहे यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है तो उसी बतानेवाले के कारण और विवेक २९ के कारण न खाओ । मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं पर उम दूसरे का । भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों

परखी जाए । यदि मैं धन्यवाद करके सामी होता हूँ तो ३० जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उस के कारण मेरी बदनामी क्यों होती है । सो तुम चाहे खाओ चाहे पिओ ३१ चाहे जो कुछ करो सब परमेश्वर की महिमा के लिये करो । तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर ३२ की कलीसिया के टोकर के कारण हो । जैसा मैं भी सब ३३ बातों में सब को प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं पर बहुतों का लाभ खोजता हूँ कि वे उद्धार पाएं ॥

११. तुम मेरी साँ चल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ ॥

हे भाइयो मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों २ में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैं ने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो । सो मैं ३ चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है । जो पुरुष सिर टाँके हुए प्रार्थना ४ या नबूवत करता है वह अपने सिर का अपमान करता है । पर जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या नबूवत करती ५ है वह अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुण्डी हुई के बराबर है । यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो ६ बाल भी कटा ले यदि स्त्री के लिये बाल कटाना या मुण्डाना लजा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े । पुरुष का ७ अपना सिर टाँकना उचित नहीं क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है पर स्त्री पुरुष की महिमा । क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ पर स्त्री पुरुष से हुई ८ है । और पुरुष स्त्री के लिये नहीं सिरजा गया पर स्त्री ९ पुरुष के लिये सिरजी गई । इसी लिये स्वर्गदूतों के १ कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे । तौभी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न ११ पुरुष बिना स्त्री है । क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे १२ पुरुष स्त्री के द्वारा है पर सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं । तुम आप ही विचार करो क्या स्त्री को उघाड़े सिर १३ परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहता है । क्या स्वाभाविक १४ व्यवहार भी तुम्हें नहीं जनाता कि यदि पुरुष लम्बे बाल रखे तो उस के लिये अपमान है । पर यदि स्त्री १५ लम्बे बाल रखे तो उस के लिये शोभा है क्योंकि बाल उस को ओढ़नी के लिये दिये गए हैं । पर यदि कोई १६ विवाद करना चाहे तो यह जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की मण्डलियों की ऐसी रीति है ॥

(१) यू० विश्वासयोग्य ।

(२) या मन या कांशस ।

(३) या अधानता का चिन्ह ।

१७ पर यह आशा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता इसलिये कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं पर १८ हानि होती है। क्योंकि पहिले मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम मण्डली में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं कुछ तो इस का प्रतीति भी करता हूँ। १९ क्योंकि विधग्म भी तुम में अवश्य होंगे इसलिये कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रगट हो जाएँ। २० सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह २१ प्रभु भोज खाने के लिये नहीं। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहिले अपना भोज खा लेता है सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो २२ जाता है। क्या खाने पाने के लिये तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिन के पास नहीं उन्हें लाजित करते हो। मैं तुम से क्या कहूँ। क्या इस बात में तुम्हें सराहूँ। २३ मैं नहीं सराहता। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैं ने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस २४ रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे २५ लिये है मेरे स्मरण के लिये यही किया करो। इसी रीति से उस ने थियारी के पाँछे कटोरा लेकर कहा यह कटोरा मेरे लोहू पर नई वाचा है जब कभी पीओ २६ तो मेरे स्मरण के लिये यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वह न आए २७ प्रचार करते हो। इसलिये जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस के कटोरे में से पीए वह २८ प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। सो मनुष्य अपने आप को परखे और इसी रीति से इस २९ रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पीए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस ३० खाने और पीने से अपने ऊपर दण्ड लाता है। इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत ३१ से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जानते तो ३२ दोषी न ठहरते। परन्तु प्रभु हमें दोषी ठहराकर हमारी ताड़ना करता है इसलिये कि संसार के ३३ साथ दण्ड के योग्य न ठहरें। इसलिये हे मेरे भाइयो जब तुम खाने के लिये इकट्ठे होते हो तो ३४ एक दूसरे के लिये ठहरो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खाए कि तुम्हारा इकट्ठा होना दण्ड का कारण न हो। और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूँगा ॥

१२. हे भाइयो मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्यजाति थे तो गृही मूरतों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। सो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह यीशु को स्थापित नहीं कहता और न कोई पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु कह सकता है ॥

वरदान तो कई प्रकार के हैं पर आत्मा एक ही है। ४ और सेवा भी कई प्रकार की है परन्तु प्रभु एक ही है। ५ और कार्य कई प्रकार के हैं परन्तु परमेश्वर एक ही है जो सब में ये सब कार्य करवाता है। पर सब के लाभ पहुंचाने के लिये हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और ९ किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर कसी को सामर्थ्य के काम करने १० की शक्ति और किसी को नबूवत और किसी को आत्माओं की पहचान और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। पर ये ११ सब कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है ॥

क्योंकि जैसे देह तो एक है और उस के अंग बहुत १२ हैं और उम एक देह के सब अंग बहुत होने भर भी एक ही देह हैं वैसे ही मसीह भी है। क्योंकि हम क्या १३ यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र सब ने एक देह होने के लिये एक आत्मा के द्वारा अपतिसमा लिया और सब को एक आत्मा पिलाया गया। इसलिये कि १४ देह में एक ही अंग नहीं पर बहुत से हैं। यदि पाँच १५ कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिये देह का नहीं तो क्या वह इस कारण देह का नहीं। और यदि कान कहे कि १६ मैं आँख नहीं इसलिये देह का नहीं तो क्या वह इस कारण देह का नहीं। यदि सारी देह आँख ही होती १७ तो सुनना कहाँ होता। यदि सारी देह कान ही होती तो सूचना कहाँ होता। पर अब तो परमेश्वर ने अंगों १८ को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रक्खा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ १९ होती। पर अब अंग तो बहुत हैं पर देह एक ही है। २० आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन २१ नहीं न सर पाँवों से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। पर देह के वे अंग जो औरों से निर्बल २२



- २३ देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं । और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हें हम और आदर देते हैं और हमारे शोभाहीन अंग और २४ भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं । पर हमारे शोभायमान अंगों का इस का प्रयोजन नहीं परन्तु परमेश्वर ने देह को ऐसा मिला दिया है कि जिस अंग को घटी थी उस २५ को और भी बहुत आदर दिया है । कि देह में फूट न २६ पड़े पर अंग एक दूसरे की बराबर चिन्ता करें । और यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उस के साथ दुख पाते हैं और यदि एक अंग की बड़ाई होती २७ है तो उस के साथ सब अंग आनन्द करते हैं । सो तुम मसीह की देह हो और एक एक करके उस के अंग हो । २८ और परमेश्वर ने कितनों को कलीसिया में ठहराया है पहिले प्रेरित दूसरे नबी तीसरे उपदेशक फिर सामर्थ्य के काम करनेवाले फिर चंगा करनेवाले और उपकार करनेवाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा २९ बोलनेवाले । क्या सब प्रेरित हैं । क्या सब नबी हैं । क्या सब उपदेशक हैं । क्या सब सामर्थ्य के काम करने- ३० वाले हैं । क्या सब को चंगा करने के वरदान मिले हैं । क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं । क्या सब अर्थ ३१ बताते हैं । तुम अच्छे से अच्छे वरदानों की धुन में रहो और मैं तुम्हें और भी सब से अच्छा मार्ग बताता हूँ ॥

### १३. यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलिया बोलूँ और प्रेम न रखूँ

- तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और भङ्गनाती भङ्ग हूँ । १ और यदि मैं नबूवत कर सकूँ और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूँ और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ पर प्रेम न रखूँ २ तो मैं कुछ भी नहीं । और यदि मैं अपना सारा माल कगालों को खिला दूँ या अपनी देह जलाने के लिये दे ३ दूँ और प्रेम न रखूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं । प्रेम धीरजवन्त और कुपाल है प्रेम डाह नहीं करता प्रेम ४ अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं । वह अन-रीति नहीं चलता वह आपस्वार्थी नहीं भुङ्गलाता नहीं ५ बुरा नहीं मानता । अधर्म से आनन्द नहीं खाता पर ६ सत्य से आनन्द होता है । वह सब बातें सह लेता है सब बातों की प्रतीति करता है सब बातों की आशा ७ रखता है सब बातों में धीरज धरता है । प्रेम कभी टलता नहीं नबूवते हों तो समाव हो जाएगी भाषाएं ८ हों तो जाती रहेंगी ज्ञान हो तो मिट जाएगा । क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी नबूवत अधूरी है । ९,१०,११ पर जब पूरा आएगा तो अधूरा मिट जाएगा । जब

मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था बालकों का सा मन था बालकों की सी समझ थी पर जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दीं । अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है पर उस १२ समय आसने सामने देखेंगे अब मेरा ज्ञान अधूरा है पर उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा पह- १३ चाना गया हूँ । पर अब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों बने रहते हैं पर इन में सब से बड़ा प्रेम है ॥

### १४. प्रेम का पीछा करो तौभी आत्मिक वरदानों की धुन में रहा विशेष

- करके यह कि नबूवत करो । क्योंकि जो आन भाषा में २ बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परन्तु परमेश्वर से बातें करता है इसलिये कि उस की कोई नहीं समझता ३ क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में बोलता है । पर जो नबूवत करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शान्ति की बातें कहता है । जो आन भाषा में ४ बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है पर जो नबूवत करता है वह मण्डली की उन्नति करता है । मैं चाहता हूँ कि तुम सब आन भाषाओं में बातें करो ५ पर अधिक करके यह कि नबूवत करो क्योंकि यदि आन आन भाषा बोलनेवाला मण्डली की उन्नति के लिये अर्थ न बताए तो नबूवत करनेवाला उस से बढ़कर है । सो हे ६ भाइयो यदि मैं तुम्हारे पास आकर आन आन भाषा में बातें करूँ और प्रकाश या ज्ञान या नबूवत या उपदेश की बातें तुम से न कहूँ तो मुझ से तुम्हारा क्या लाभ ७ होगा । निर्जाव की वस्तुएं भी जिन स शब्द निकलते हैं जैसे कि बांसुरी या बाँन यदि उन के स्वरो में भेद न ८ हो तो जो बांसुरी या बाँन पर बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा । और यदि तुरही का शब्द साफ ९ न हो तो लड़ाई के लिये कौन तैयारी करेगा । ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न करो तो जो १० कहा जाता है वह क्योंकर समझा जाएगा । तुम तो हवा से बातें करनेवाले ठहरोगे । जगत में कितने ही प्रकार को भाषा क्यों न हो पर उन में से कोई भी ११ बिना अर्थ की न होगी । इसलिये यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूँ तो बोलनेवाले के लेखे परदेशी १२ ठहरूंगा और बोलनेवाला मेरे लेखे परदेशी ठहरेगा । सो तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा १३ यत्न करो कि तुम्हारे वरदानों के बढ़ने से मण्डली की उन्नति हो । इस कारण जो आन भाषा बोलते वह प्रार्थना १४ करे कि अर्थ भी बता सके । इसलिये यदि मैं आन भाषा में प्रार्थना करूँ तो मेरा आत्मा प्रार्थना करता है

- १५ पर मेरी बुद्धि काम नहीं देती । सो क्या करना चाहिए । मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी
- १६ गाऊंगा । नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो जो अनपढ़े की सी दशा में है वह तेरे धन्यवाद पर आमीन क्योंकर कहेगा वह तो नहीं जानता कि तू
- १७ क्या कहता है । तू तो भली भांति धन्यवाद करता है
- १८ पर दूसरे की उन्नति नहीं होती । मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से और भी आन
- १९ आन भाषा बोलता हूँ । पर मण्डली में आन भाषा में दस हजार बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिये बुद्धि से पांच ही बातें कहूँ ॥
- २० हे भाइयो तुम समझ में बालक न बने तौ भी बुराई में बालक रहो पर समझ में सियाने बने ।
- २१ व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहना है मैं पराई भाषा बोलनेवालों के द्वारा और पराए मुख के द्वारा इन
- २२ लोगों से बातें करूंगा तौभी वे मेरी न सुनेंगे । सो आन आन भाषाएं विश्वासियों के लिये नहीं पर अविश्वासियों के लिए चिन्ह है और नबूवत अविश्वासियों के लिये नहीं
- २३ पर विश्वासियों के लिये चिन्ह है । सो यदि सारी मण्डली एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब आन आन भाषा बोलें और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं
- २४ तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे । पर यदि सब नबूवत करने लगें और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और
- २५ परखेंगे । और उस के मन के भेद प्रगट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को प्रणाम करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच है ॥
- २६ सो हे भाइयो क्या करना चाहिए । जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के पास भजन या उपदेश या आन भाषा या प्रकाश या आन भाषा का अर्थ बताना
- २७ है सब कुछ उन्नति के लिये किया जाए । यदि आन भाषा में बातें करनी हों तो दो दो या बहुत हो तो तीन
- २८ तीन जन बारी बारी बोलें और एक जन अर्थ बताए । पर यदि अर्थ बतानेवाला न हो तो आन भाषा बोलनेवाला मण्डली में चुपका रहे और अपने मन से और परमेश्वर
- २९ से बातें करे । नबियों में से दो या तीन बोलें और शेष
- ३० लोग उन के वचन को परखें । पर यदि दूसरे पर जो बैठा
- ३१ है कुछ प्रकाश हो तो पहिला चुप हो जाए । क्योंकि तुम सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो कि सब
- ३२ सीखें और सब शांति पाएं । और नबियों के आत्मा

नबियों के वश में हैं । क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ का नहीं ३३ पर शांति का कर्त्ता है जैसे पवित्र लोगों की सब मण्डलियों में है ॥

स्त्रियां मण्डलियों में चुप रहें क्योंकि उन्हें बातें ३४ करने की आज्ञा नहीं पर अधीन रहने की आज्ञा है जैसा व्यवस्था में लिखा भी है । और यदि वे कुछ ३५ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें क्योंकि स्त्री का मण्डली में बातें करना लज्जा की बात है । क्या ३६ परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या तुम ही तक पहुंचा ॥

यदि कोई मनुष्य अपने आप को नबी या आत्मिक ३७ जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं । पर यदि कोई न ३८ जाने तो न जाने ॥

सो हे भाइयो नबूवत करने की धुन में रहो और ३९ आन भाषा बोलने से मना न करो । पर सारी बातें ४० सम्यता और ठिकाने से की जाएं ॥

१५. हे भाइयो मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो सुना चुका हूँ जिसे तुम ने अंगीकार भी किया और जिस में तुम बने भी हो । जिस के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि २ जो सुसमाचार मैं ने तुम्हें सुनाया उस में बने रहो नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ । मैं ने सब से ३ पहिले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिये मरा । और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार ४ तीसरे दिन जी उठा, और केफा को तब बारहों को ५ दिखाई दिया । फिर पांच सौ से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया जिन में से बहुतेरे अब तक बने हैं पर कितने सो गए । फिर याकूब को तब सब प्रेरितों ७ को दिखाई दिया । और सब से पीछे मुझ को भी ८ दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ । क्योंकि ९ मैं प्रेरितों में सब से छोटा हूँ वरन प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं इस कारण कि मैं ने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था । पर मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनु- १० ग्रह से हूँ और उस का अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ पर मैं ने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया तौभी मैं ने नहीं परन्तु परमेश्वर के अनुग्रह ने जो मुझ पर था । सो चाहे मैं हूँ चाहे वे हों हम यही ११ प्रचार करते हैं और इसी पर तुम ने विश्वास किया ॥

सो जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है १२ कि वह मरे हुआओं में से जी उठा तो तुम में से कितने

क्योंकर कहते हैं कि मरे हुआ का पुनरुत्थान<sup>१</sup> नहीं ।  
 १३ यदि मरे हुआ का पुनरुत्थान<sup>१</sup> नहीं तो मसीह भी जी  
 १४ नहीं उठा । और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा  
 १५ प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है । बरन  
 हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हम ने परमे-  
 श्वर की गवाही दी कि उस ने मसीह को जिलाया पर  
 यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो उस ने उस को नहीं  
 १६ जिलाया । और यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो मसीह  
 १७ भी नहीं जी उठा । और यदि मसीह नहीं जी उठा  
 तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है तुम अब तक अपने पापों  
 १८ में हो । बरन जो मसीह में सो गये हैं वे भी नाश हुए ।  
 १९ यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते  
 हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य हैं ॥  
 २० पर सचमुच मसीह मरे हुआ में से जी उठा है और  
 २१ जो सो गये हैं उन में पहला फल हुआ । क्योंकि जब  
 कि मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा  
 २२ मरे हुआ का पुनरुत्थान<sup>१</sup> भी होगा । और जैसे  
 आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए  
 २३ जाएंगे । पर हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल  
 २४ मसीह फिर मसीह के आने पर उस के लोग । इस के  
 पीछे अन्त होगा उस समय वह सारी प्रधानता और  
 सारा अधिकार और सामर्थ का अन्त करके राज्य को  
 २५ परमेश्वर पिता के हाथ सौंप देगा । क्योंकि जब तक कि  
 वह सब बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक  
 २६ उसे राज्य करना अवश्य है । सब से पिछला बैरी जिस  
 २७ का अन्त होगा वह मृत्यु है । क्योंकि उस ने सब कुछ  
 उस के पांवों तले कर दिया पर जब वह कहता है कि  
 सब कुछ उस के अधीन कर दिया गया तो प्रगट है कि  
 जिस ने सब कुछ उस के अधीन कर दिया वह आप  
 २८ अलग रहा । और जब सब कुछ उस के अधीन हो  
 जाएगा तो पुत्र आप भी उस के अधीन होगा जिस ने  
 सब कुछ उस के अधीन कर दिया कि सब में परमेश्वर  
 ही सब कुछ हो ॥  
 २९ नहीं तो जो मरे हुआ के लिये बपतिसमा लेते हैं  
 वे क्या करेंगे । यदि मरे हुए जी उठते ही नहीं तो फिर  
 ३० क्यों उन के लिये बपतिसमा लेते हैं । हम भी क्यों हर  
 ३१ बड़ी जोखिम में रहते हैं । हे भाइयो मुझे उस बमराइ  
 की सोह जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय  
 ३२ करता हूं मैं हर दिन मरता हूं । यदि मैं मनुष्य की  
 रीति पर इफिसस में बनपशुओं से लड़ा तो मुझे क्या

लाभ हुआ यदि मरे हुए न जिलाए जाएंगे तो आओ  
 खाएं पीएं क्योंकि कल तो मर हो जाएंगे । धोखा न ३३  
 खाना बुरी संगति अच्छी चाल को बिगाड़ देती है ।  
 धर्म के लिये जाग उठो और पाप न करो क्योंकि कितने ३४  
 हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते मैं तुम्हारे लजाने के  
 लिये यह कहता हूं ॥

अब कोई यह कहेगा मरे हुए किस रीति से ३५  
 जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं । हे ३६  
 निर्बुद्धि जो कुछ तू बेता है जब तक न मरे जिलाया  
 नहीं जाता । और जो तू बेता है यह वह देह नहीं जो ३७  
 उत्पन्न होनेवाली है पर निरा दाना है चाहे गेहूं का चाहे  
 किसी और अनाज का । परन्तु परमेश्वर अपनी इच्छा के ३८  
 अनुसार उस को देह देता है और हर एक बीज को  
 उस की निज देह । सब शरीर एक सरीखे नहीं पर ३९  
 मनुष्यों का शरीर और पशुओं का शरीर और पक्षियों का  
 शरीर और मछलियों का शरीर और है । स्वर्ग पर की ४०  
 देह भी हैं और पृथिवी पर की भी हैं पर स्वर्ग पर की  
 देहों का तेज और है पृथिवी पर की देहों का और ।  
 सूरज का तेज और है चांद का तेज और है और तारों ४१  
 का तेज और है क्योंकि एक तारा दूसरे तारे से तेज में  
 भिन्न है । मरे हुआ का जी उठना भी ऐसा ही है । ४२  
 नाशमान बोया जाता है अविनाशी जी उठता है । वह ४३  
 अनादर के साथ बोया जाता है तेज के साथ जी उठता  
 है निर्बलता के साथ बोया जाता है सामर्थ के साथ जी  
 उठता है । प्राणिक देह बोया जाता है आत्मिक देह जी ४४  
 उठता है । जब कि प्राणिक देह है तो आत्मिक देह भी  
 है । ऐसा ही लिखा भी है कि पहला मनुष्य आदम ४५  
 जीता प्राणी और पिछला आदम जीवनदायक आत्मा  
 बना । पर पहिले आत्मिक न था पर प्राणिक था इस ४६  
 के पीछे आत्मिक हुआ । पहला मनुष्य पृथिवी से ४७  
 मिट्टी का था दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है । जैसा वह ४८  
 मिट्टी का था वैसे वे भी हैं जो मिट्टी के हैं और जैसा ४९  
 वह स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं । और जैसे  
 हम ने उस का रूप जो मिट्टी का था धरा वैसे ही उस  
 स्वर्गीय का रूप भी धरेंगे ॥

हे भाइयो मैं यह कहता हूं कि मांस और लोह ५०  
 परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न  
 विनाश अविनाश का अधिकारी हो सकता है । देखो मैं ५१  
 तुम से भेद की बात कहता हूं कि हम सब सोएंगे नहीं  
 पर सब बदल जाएंगे । और यह पल भर में पलक मारते ५२  
 ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा । क्योंकि तुरही फूकी  
 जायगी और मरे हुए अविनाशी दशा में उठाये जाएंगे

५३ और हम बदल जाएंगे । क्योंकि अवश्य है कि यह नाश-  
मान देह अविनाश के पहिन ले और यह मरनहार अम-  
५४ रता के पहिन ले । और जब यह नाशमान अविनाश के  
पहिन लेगा और यह मरनहार अमरता के पहिन  
लेगा तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि  
५५ जय ने मृत्यु के निगल लिया । हे मृत्यु तेरी जय कहां  
५६ हे मृत्यु तेरा डंक कहां । मृत्यु का डंक पाप है और  
५७ पाप का बल व्यवस्था है । परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद  
हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन्त  
५८ करता है । सो हे मेरे प्यारे भाइयो दृढ़ और अचल  
रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ क्योंकि  
यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ  
नहीं है ॥

१६. अब उस चन्दे के विषय जो पवित्र लोगों के

लिये किया जाता है जैसा मैं ने गलातया

की मण्डलियों के आज्ञा दी वैसा ही तुम भी करो ।

२ अठवारे के पहिले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी

के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने

३ पर चन्दे न करने पड़े । और जब मैं आऊंगा तो

जिन्हें तम चाहेगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि

४ तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे । और यदि मेरा भी

५ जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे । और मैं

मकिदूनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि मुझे

६ मकिदूनिया होकर तो जाना ही है । पर क्या जाने

तुम्हारे यहां ठहरू और जाड़ा भी तुम्हारे यहां काटू कि

जिम और मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा दो ।

७ क्योंकि मैं अब मार्ग में तुम से भेंट करना नहीं चाहता

पर मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय

८ तुम्हारे साथ रहूंगा । पर मैं पेन्तिकुस्त तक इफसुम

९ में रहूंगा । क्योंकि मेरे लिये एक बड़ा और उपयोगी

द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं ॥

यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह १०  
तुम्हारे यहां निडर रहे क्योंकि वह मेरी नाई प्रभु  
का काम करता है । इसलिये कोई उसे तुच्छ न जाने ११  
पर उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ  
जाए क्योंकि मैं बाट जोह रहा हूं कि वह भाइयों के साथ  
आए । और भाई अपुल्लोस से मैं ने बहुत बिनती की १२  
कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए पर उस ने इस  
समय जाने की कुछ भी इच्छा न की पर जब अवसर  
पाएगा तब जायगा ॥

जागते रहो विश्वास में बने रहो पुरुषार्थ १३  
करो बलवन्त होओ । जो कुछ करते हो प्रेम से १४  
करो ॥

हे भाइयो तुम स्तिफनास के घराने के जानते १५

हो कि वे अखया के पहिले फल हैं और पवित्र लोगों की

सेवा के लिये तैयार रहते हैं । सो मैं तुम से बिनती १६

करता हूं कि ऐसी के बग्न हर एक के अधीन रहे जो

इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी हैं । और मैं १७

स्तिफनास और फूरतूनातुस और अखइकुस के आने से

आनन्दित हूं क्योंकि उन्होंने ने तुम्हारी घटा पूरी की है ।

और उन्होंने ने मेरे और तुम्हारे आत्मा को चैन दिया १८

इसलिये ऐनों के मानो ॥

आशिया की मण्डलियों की ओर से तुम को १९

नमस्कार अक्वला और प्रिसका का और उन के घर में

की मण्डली का तुम को प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार ।

सब भाइयों का तुम को नमस्कार । पवित्र चुम्बन से २०

आत्म में नमस्कार करो ॥

मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ २१

नमस्कार । यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो स्थापित २२

हो । हमारा प्रभु आनेवाला है । प्रभु यीशु मसीह का २३

अनुग्रह तुम पर होता रहे । मेरा प्रेम मसीह यीशु में २४

तुम सब से रहे । आमीन ॥

# कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री ।

१. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस मण्डली के नाम जो कुरिन्थुस में है और सारे अखया के सब पवित्र लोगों के नाम ॥
- २ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥
- ३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शान्ति का परमेश्वर है । वह हमारे सब क्लेशों में शान्ति देता है इसलिये कि हम उस शान्ति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शान्ति दे सकें जो
- ४ किसी प्रकार के क्लेश में हों । क्योंकि जैसे मसीह के दुःख हम को अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शान्ति भी
- ५ मसीह के द्वारा अधिक होती है । यदि हम क्रेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शान्ति और उद्धार के लिये है और यदि शान्ति पाते हैं तो यह तुम्हारी शान्ति के लिये है जिस के प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्रेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं । और हमारी आशा तुम्हारे विषय दृढ़ है क्योंकि जानते हैं कि तुम
- ६ जैसे दुःखों के वैसे ही शान्ति के भी भागी हो । हे भाइयो हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्रेश से अनजान रहे जो आसिया में हम पर पड़ा कि ऐसे भारी बोझ से दब गये थे जो सामर्थ से बाहर था यहाँ लों कि हम
- ७ जीवन से भी हाथ धो बैठे थे । बरन हम ने अपने जी में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आशा हो चुकी कि हम अपना भरोसा न रखें बरन परमेश्वर का जो मरे
- ८ हुआ को जिलाता है । उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा और उस से हमारी यह आशा
- ९ है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा । और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उस के कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें ॥

क्योंकि हम अपने विवेक<sup>१</sup> की इस गवाही पर १२ घमण्ड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चालचलन परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान नहीं परन्तु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था । हम तुम्हें और कुछ १३ नहीं लिखते केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो और मुझे आशा है कि अन्त तक भी मानते रहोगे । जैसा तुम में से कितनों ने<sup>२</sup> मान भी लिया है कि हम १४ तुम्हारे घमण्ड का कारण हैं जैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे घमण्ड का कारण होगे ॥

और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहिले तुम्हारे १५ पास आऊँ कि तुम्हें एक और दान मिले । और तुम्हारे १६ पास से होकर मकिदुनिया को जाऊँ और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊँ और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर पहुँचाओ । सो ऐसा चाहने में क्या मैं ने १७ चंचलता दिखाई या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुमार करना चाहता हूँ कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ । परमेश्वर सच्चा<sup>३</sup> गवाह है कि १८ हमारे उस वचन में जो तुम से कहा हाँ और नहीं दोनों पाई नहीं जातीं । क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह १९ जिस का हमारे द्वारा अर्थात् मेरे और सिलबानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ उस में हाँ और नहीं दोनों न थीं पर उस में हाँ ही हाँ हुई । क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएँ हैं वे सब उसी में २० हाँ के साथ हैं इसलिये उस के द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो । और जो हमें तुम्हारे २१ साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिस ने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है । जिस ने हम पर छाप भी २२ दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनो में दिया ॥ पर मैं परमेश्वर को गवाह<sup>४</sup> करता हूँ कि मैं अब २३ तक कुरिन्थुस में नहीं आया कि मुझे तुम पर

(१) मन या कांशस । (२) या थोड़ा बहुत ।

(३) या विश्वासी । (४) यू० अपने प्राण पर गवाह

२४ तरस आता था । यह नहीं कि हम विश्वास के विषय तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं पर तुम्हारे आनन्द में सहायक हैं क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते

२. हो । मैं ने यही ठान लिया कि फिर तुम्हारे पास उदास हो कर न आऊँ ।

२ क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करू तो मुझे आनन्द देने-

वाला कौन होगा केवल वही जिस को मैं ने उदास

३ किया । और मैं ने यही बात तुम्हें इसलिये लिखी कि ऐसा न हो कि मेरे आने पर जिन से आनन्द मिलना चाहिए मैं उन से उदास होऊँ क्योंकि मुझे तुम सब पर

इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनन्द है वही

४ तुम सब का भी है । बड़े क्रोध और मन के कष्ट से मैं ने बहुत से आसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा इसलिये नहीं कि तुम उदास हो पर इसलिये कि तुम उस बड़े प्रेम

को जान लो जो मुझे तुम से है ॥

५ याद किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं बरन (कि उस के साथ बहुत कड़ाई न करूँ) कुछ कुछ

६ तुम सब को भी उदास किया है । ऐसे जन के लिये यह दंड

७ जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है । इसलिये इससे यह भला है कि उस का अपराध क्षमा करो और शान्ति

८ दो न हो । कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए ।

९ इस कारण मैं तुम से बिनती करता हूँ कि उस को अपने प्रेम का प्रमाण दो । क्योंकि मैं ने इसलिये भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि सब बातों के मानने के लिये

१० तैयार हो कि नहीं । जिस का तुम कुछ क्षमा करते हो मैं भी क्षमा करता हूँ क्योंकि मैं ने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह का जगह में

११ हाकर<sup>१</sup> क्षमा किया है । कि शैतान का हम पर दाब न चले क्योंकि हम उस की लुगतों से अनजान नहीं ॥

१२ जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने का आश्रम में

१३ आया और प्रभु ने मेरे लिये एक द्वार खोल दिया । तो मेरे मन में चैन न मिला इसलिये कि मैं ने अपने भाई

१४ तितुस को नहीं पाया सो उन से बिदा होकर मैं मकि-

१५ दुनिया को चला गया । परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हम को जय के उत्सव में लिये फिरता है और अपने ज्ञान का सुगन्ध हमारे द्वारा हर जगह

१६ फैलाता है । क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने-वाला और नाश होनेवालों दोनों के लिये मसीह के

१७ सुगन्ध हैं, कितनों के लिये तो मरने के निमित्त मृत्यु की गन्ध और कितनों के लिये जीवन के निमित्त जीवन की

१८ गन्ध और इन बातों के योग्य कौन है । क्योंकि हम उन

(१) या मसीह को हाजिर जानकर ।

बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं पर मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं ॥

३. क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें कितनों की नाई सिफारिश

की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुम से लेनी हैं ।

हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है २

और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं । यह प्रगट ३

है कि तुम मसीह की पत्री हो जिस को हम ने सेवकों की नाई लिखा और जो सियाही से नहीं पर जीविते पर-

मेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं पर हृदय ४

की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है । हम मसीह के द्वारा ५

परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं । यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी

बात का विचार कर सकें पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है । जिस ने हमें नई वाचा के सेवक होने के

६ योग्य भी किया शब्द<sup>२</sup> के सेवक नहीं बरन आत्मा के क्योंकि शब्द<sup>२</sup> मारता है पर आत्मा जिलाता है । और यदि ७

मृत्यु की वाचा की वह सेवा जिस के अक्षर पत्थरों पर खादे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के

तेज के कारण जो घटता भी जाता था इसाईली उस के मुंह पर दृष्टि न कर सकते थे । तो आत्मा की [वाचा ८

का] सेवा और भी तेजोमय क्यों न होगी । क्योंकि जब ९

दोषी ठहरानेवाली [वाचा की] सेवा तेजोमय थी तो धर्मी ठहरानेवाली [वाचा की] सेवा और भी तेजोमय

क्यों न होगी । और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के १०

कारण जो उस से बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा । क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था ११

तो वह जो बना रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा ॥

तो वह जो बना रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा ॥

तो वह जो बना रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा ॥

तो वह जो बना रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा ॥

तो वह जो बना रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा ॥

(२) यू० अक्षर । (३) या ओढ़ना ।

दिखाकर उस प्रभु के द्वारा जो आत्मा है तेज पर तेज प्राप्त करते हुए उसी रूप में बदलते जाते हैं ॥

४. इस लिये जब हम पर ऐसी दया हुई कि

- हमें यह सेवा मिली है तो हम  
 १ हिवाव नहीं छोड़ते । पर लज्जा के गुप्त कामों का त्याग दिया और न चतुराई से चलते न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं पर सत्य का प्रगट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं । पर यदि हमारे सुसमाचार पर परदा पड़ा तो यह  
 ४ नाश होनेवाला ही के लिये पड़ा है । और उन आवश्वासियों के लिये जिन की मात इस संसार के ईश्वर ने अंधो कर दी है कि मसीह जो परमेश्वर का प्रांत्तरूप है उस के तेज के सुसमाचार का उजाला उन पर न पड़े ।  
 ५ क्योंकि हम अपने आप को नहीं पर मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है और अपने विषय यह  
 ६ कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे दास हैं । इसलिये कि परमेश्वर हाँ है जिस ने कहा कि अबकार म से ज्योति चमकेगी और वहाँ हमारे मनो में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहिचान का ज्वात यीशु मसीह के मुँह से प्रकाश हा ॥

- ७ पर हमारे पास यह धन मिट्टी के बरतनों में रक्खा है कि यह बहुत ही भारी सामर्थ्य हमारा और से नहीं  
 ८ बरन परमेश्वर ही का ठहरे । हम चारों ओर से क्रेश पात है पर सकट में नहीं पड़ते । निष्पाय ता है पर निराश  
 ९ नहीं होते, सताए ता जाते हैं पर त्यागे नही जाते गिराए  
 १० तो जाते हैं पर नाश नहीं होते । हम यीशु का वध किया जाना सदा अपनी देह म लिये फिरत है । कि याशु का  
 ११ जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो । क्योंकि हम जीत जी सदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ सोंपे जाते हैं कि याशु  
 १२ का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर में प्रगट हा । सा  
 १३ मृत्यु हम में और जीवन तुम में काय्य करता है । और इसलिये कि हम में वही विश्वास का आत्मा है (जिस के विषय लिखा है कि मैं ने विश्वास किया इसलिये मैं बोला तो हम भी विश्वास करत हैं इसलिये बोलते  
 १४ हैं । क्योंकि जानते हैं कि जिस ने प्रभु यीशु का जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाज़िर करेगा । क्योंकि सब कुछ तुम्हारे  
 १५ लिये है इसलिये कि अनुग्रह बहुतों के द्वारा आधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिये धन्यवाद बढ़ाए ॥

- १६ इसलिये हम हिवाव नहीं छोड़ते पर यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी भीतरी

(१) मन कांशंस ।

मनुष्यत्व दिन पर दिन नया होता जाता है । क्योंकि १७ हमारा पल भर का हलका सा क्रेश हमारे लिये बहुत ही भारी और अनन्त महिमा उत्पन्न करता जाता है । और १८ हम तो देखो हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं पर अनदेखी वस्तुएं सदा बना रहती हैं ॥

५. क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा

पृथिवी पर का डेरा सा घर गिराया जाए तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ का बना हुआ घर नहीं पर सदा काल के लिये होगा । इस में तो हम कहते और २ बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर का पहिन लें । कि इस के पहिनने से हम नगे न पाए जाएं । ३ और हम इस डेरे में रहते हुए बेभक्त से दबे कहते रहते ४ हैं क्योंकि हम उतारना नहीं बरन और पहिनना चाहते हैं कि जीवन से यह मरनहार निगला जाए । और जिस ५ ने हमें इसी बात के लिये तैयार किया वह परमेश्वर है जिस ने हमें वयाने में आत्मा दिया । सा हम सदा ढाड़स ६ बाधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं । क्योंकि हम रूप देखे ७ नहीं पर विश्वास से चलते हैं । इसलिये हम ढाड़स ८ बाधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी भला समझते हैं । इस कारण हमारे मन ९ की उमंग यह है कि चाह साथ रहे चहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहे । क्योंकि अवश्य है कि हम सब का १० हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उस ने देह के द्वारा किए हाँ पाए ॥

सा प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते ११ हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रगट है और मरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रगट हुआ होगा । हम फिर अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं १२ जताते बरन हम अपने विषय तुम्हें घमण्ड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सका जो मन पर नहीं बरन दिखावे पर घमण्ड करते हैं । यदि हम १३ बेसुध है तो परमेश्वर के लिये और यदि सुसुद्ध है तो तुम्हारे लिये है । क्योंकि मसीह का प्रेम हमें बश में कर १४ लेता है इसलिये कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिये मरा तो वे सब मर गए । और वह इस १५ निमित्त सब के लिये मरा कि जो जीते हैं वे आगे को अपने लिये न जीए पर उस के लिये जो उन के लिये

(२) या मन का कांशंस ।

- १६ मरा और जी उठा । सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे और यदि हम ने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तौभी अब से उस को ऐसा १७ भी न जानेंगे । सो यदि कोई मसीह में हां तो नई सृष्टि १८ है पुरानी बातें बीत गई हैं देखो वे नई हां गई । और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिस ने मसीह के द्वारा अपने साथ हमें मिला लिया और मेल मिलाप १९ करने की सेवा हमें दी । अर्थात् परमेश्वर मसीह में होकर जगत के लोगों को अपने साथ मिला लेता था और उन के अपराधों का लेखा न लिया और मेल मिलाप कराने का वचन हमें सौंप दिया ॥
- २० सो हम मसीह के दूत हैं मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है हम मसीह का ओर से बिनती करते २१ हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो । जो पाप से अनजान था उसी को उस ने हमारे लिये पाप ढहराया कि उस में हम परमेश्वर की धार्मिकता हां जाए ॥

**६. सो** हम जो उस के सहकर्मी हैं समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह

- २ जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो । वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता समय में ने तरी सुन ली और उद्धार करने के दिन में ने मरी सहायता का । देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है देखो अभी वह उद्धार का दिन है । ३ हम किसी बात में कुछ ठाकर नहीं खिलाते कि हमारी सेवा पर दाप न लगे । पर हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपना भलाई दिखाते हैं बहुत धारता ४ से क्लेशों से दरिद्रता से सकटां से । काड़े खान से क्रुद्ध होने से हुल्लड़ां से परिश्रम से जागत रहने से उपवास ५ करने से । शुद्धता से ज्ञान से धीरज से कृपालुता से पवित्र ६ आत्मा से सच्चे प्रेम से । सत्य के वचन से परमेश्वर की सामर्थ से धर्म के हाथधारों से जो दाहिने बाए हैं । ८ आदर और निरादर से दुरनाम और सुनाम से भरमान- ९ वालां के ऐसे हैं तौभी सच्चे हैं । अनजानां के ऐसे हैं तौभी जाने जाते हैं मरते हुआं के ऐसे हैं और देखां जीते हैं ताड़ना किए हुआं के ऐसे हैं और घात नहीं १० किए जाते हैं । उदासां के ऐसे हैं पर सदा आनन्द करते हैं कंगालों के ऐसे हैं पर बहुतां का धनी कर देते हैं ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तौभी सब कुछ रखते हैं ॥ ११ हे कुरिन्थियो हम ने खुलकर तुम से बातें की हैं १२ हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है । तुम्हारे लिये

हमारे मन में कुछ सकेती नहीं पर तुम्हारे ही मनो में सकेती है । पर अपने लड़के बाले जानकर तुम से कहता १३ हूं कि तुम भी उस के बदले में अपना हृदय खोलो ॥

अविश्वासियों के साथ न जुटना क्योंकि धर्म और १४ अधर्म का क्या साभा या अंधकार और ज्योति की क्या संगत है । और बलियाल के साथ मसीह की क्या सम्मति १५ है और अविश्वासी के साथ विश्वासी का क्या भाग । और मूरतों के साथ परमेश्वर के मन्दिर का क्या संबध १६ है क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर के मन्दिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उन में बसूंगा और उन में चला फिरा करूंगा और मैं उन का परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लागे हंगे । इसलिये प्रभु कहता १७ है उन के बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत लुओ तां मैं तुम्हें प्रदण करूंगा । और तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मरे बेटे और बेटियां १८ हंगे सर्वशक्तिमान् प्रभु कहता है ॥

**७. सो** हे प्यारो जब कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप

को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता का सिद्ध करें ॥

हमें अपने हृदय में जगह दो हम ने न किसी से २ अन्याय किया न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा । मैं तुम्हें दोषी ठहराने को नहीं कहता क्योंकि मैं ३ पहिले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिये तैयार हैं । तुम से बहुत हियाव के साथ बोलता हूं मुझे तुम्हारा ४ बड़ा घमण्ड है मैं शान्ति से भर गया हूं अपने सारे क्लेश में मैं आनन्द से भरा रहता हूं ॥

क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे ५ शरीर को चैन नहीं मिला पर हम चारों ओर से क्लेश पाते थे बाहर लड़ाइयां भीतर भय थ । तौभी दीनों को ६ शान्ति देनेवाले परमेश्वर ने तितुस के आने से हम को शान्ति दी । और केवल उस के आने से नहीं पर उस ७ शान्ति से भी जो उस को तुम्हारी ओर से मिली थी और उस ने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे बिलाप और मरे लिये तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया जिस से मुझे और भी आनन्द हुआ । क्योंकि यद्यपि मैं ने अपनी ८ पत्नी से तुम्हें उदास किया और इसलिये पछताता था पर अब नहीं पछताता क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्नी

(१) या बिनती करता ।

(२) या व्यर्थ होने के लिये न ले लो ।

(३) या असमान जूप में न जुटना ।



- से तुम्हें उदासी तो हुई पर वह थोड़ी देर के लिये थी ।
- ९ अब मैं आनन्दित हूँ और इसलिये नहीं कि तुम उदास हुए बरन इसलिये कि तुम ने उस उदासी के कारण मन फिराया क्योंकि तुम्हारी उदासी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थी कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में १० हानि न हो । क्योंकि जो उदासी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है उस से वह मन फिराव उत्पन्न होता है जिस का अन्त उद्धार है और उस से पछताना नहीं पड़ता पर ११ संसारी उदासी से मृत्यु उत्पन्न होती है । सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उदासी हुई तुम में कितना यत्न और उन्नत और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ । तुम ने सब प्रकार से यह दिखाया कि इस बात १२ में तुम निर्दोष हो । फिर मैं ने जो तुम्हारे पास लिखा सो न तो उस के कारण लिखा जिस ने अधर्म किया न उस के कारण जिस का अधर्म किया गया पर इसलिये कि तुम्हारा यत्न जो हमारे लिये है वह परमेश्वर के १३ सामने तुम पर प्रगट हो जाए । इसलिये हमें शान्ति हुई और हमारी इस शान्ति के साथ तितुस के आनन्द के कारण और भी आनन्द हुआ क्योंकि उस का १४ जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है । क्योंकि यदि मैं ने उस के सामने तुम्हारे विषय कुछ घमण्ड दिखाया तो लाज्जित नहीं हुआ पर जैसे हम ने तुम से सब बातें सच सच कह दी थीं वैसे ही हमारा घमण्ड दिखाना तितुस के सामने भी सच निकला । १५ और जब उस को तुम सब के आशुकारी होने का स्मरण आता है कि क्योंकि तुम ने डरते और कांपते हुए उस से भेंट की तो उस का प्यार तुम्हारी ओर और भा बढ़ता १६ जाता है । मैं आनन्द करता हूँ कि तुम्हारी ओर से मुझे हर बात में ढाढ़स होता है ॥

८. हे भाइयो हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो

- १ मक्तिदुनिया की मण्डलियों पर हुआ है । कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उन के बड़े आनन्द और भारी कंगालपन ३ के बढ जाने से उन की उदारता बहुत बढ गई । और उन के विषय मेरी यह गवाहा है कि उन्होंने ने अपनी सामर्थ्य ४ भर बरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया । और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय ५ हम से बार बार बिनती की । और जैसी हम ने आशा की थी वेसी ही नहीं बरन उन्होंने ने पहिले प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हम को भी अपने तर्ह दे दिया ।

(१) था बवाव के लिये उत्तर ।

इसलिये हम ने तितुस को समझाया कि जैसा उस ने ६ पहिले आरम्भ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच इस दान के काम को पूरा भी कर ले । सो जैसे हर बात में अर्थात् ७ विश्वास बचन ज्ञान सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ । मैं आज्ञा की रीति पर नहीं ८ पर औरों के यत्न से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिये कहता हूँ । तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का ९ अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर तुम्हारे लिये कंगाल बना कि उस के कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ । और इस बात में मेरा विचार यह है क्योंकि यह १० तुम्हारे लिये अच्छा है जो बरस दिन से न केवल करने में पर चाहने में भी पहिले हुए थे । सो अब यह काम ११ पूरा करो कि जैसा चाहने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूजा के अनुसार पूरा भी करो । क्योंकि यदि मन १२ की तैयारी होती है तो जो जिस के पास है उस के अनुसार वह ग्रहण होता है न उस के अनुसार जो उस के पास नहीं । यह नहीं कि औरों को चैन और तुम को १३ क्लेश मिले । पर बराबरी के विचार से इस समय १४ तुम्हारी बढ़ती उन की घटी में काम आये कि उन की बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए । जैसा लिखा है जिस ने बहुत बटोरा था उस का १५ कुछ आधिक न निकला और जिस ने थोड़ा बटोरा उस का कुछ कम न निकला ॥

और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस ने तुम्हारे १६ लिये वही उत्साह तितुस के हृदय में डाल दिया है । कि उस ने हमारा समझाना माना बरन बहुत उत्साही १७ होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया । और १८ हम ने उस के साथ उस भाई को भेजा जिस का नाम सुसमाचार के विषय सब मंडलियों में फैला हुआ है । और इतना ही नहीं पर वह मंडलियों से ठहराया भी १९ गया कि इस दान के काम के लिये हमारे साथ जाए और हम यह सेवा इसलिये करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रगट हो जाए । हम इस २० बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय जिस की सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष न लगाने पाए । क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के २१ निकट नहीं पर मनुष्यों के निकट भी भती हैं हम उन की चिन्ता करते हैं । और हम ने उस के साथ अपने भाई २२ को भेजा है जिस को हम ने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है पर अब तुम पर जो बड़ा भरोसा है उस के कारण और भी बहुत उत्साही पाया

२३ है । यदि कोई तितुस के विषय पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिये मेरा सहकर्मि है और यदि हमारे भाइयों के विषय पूछे तो वे मरुडलियों के भेजे हुए २४ और मसीह की महिमा हैं । सो अपना प्रेम और हमारा घमण्ड जो तुम्हारे विषय करते हैं मरुडलियों के सामने उन्हें दिखाओ ॥

९ अब इस सेवा के विषय जो पवित्र लोगों के लिये की जाती है मुझे

१ तुम को लिखना अवश्य नहीं । क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ जिस के कारण मैं तुम्हारे विषय मकिदुनियों के सामने घमण्ड दिखाता हूँ कि अखला के लोग बरस दिन से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ३ ने बहुतों को उभारा । पर मैं ने भाइयों को इसलिये भेजा है कि हम ने जो घमण्ड तुम्हारे विषय दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे पर जैसा मैं ने कहा वैसे ही ४ तुम तैयार हो रहे । ऐसा न हो कि यदि कोई मकिदुनी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार न पाए तो क्या जानें इस भरोसे के कारण हम (यह नहीं कहते कि तुम) ५ लज्जित हों । इसलिये मैं ने भाइयों से यह बिनती करना अवश्य समझा कि वे पहिले से तुम्हारे पास जाएँ और तुम्हारी उदारता का फल जिस के विषय पहिले से वचन दिया गया था तैयार कर रखें कि यह ज़बर-दस्ती<sup>१</sup> के नहीं पर उदारता के फल की नाई तैयार हो ॥ ६ पर बात यह है कि जो थोड़ा<sup>२</sup> बोता है वह थोड़ा<sup>३</sup> काटेगा भी और जो बहुत<sup>४</sup> बोता है वह बहुत<sup>५</sup> काटेगा । ७ हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे दान करे न कुछ कुछ के और न दबाव से क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देनेवाले ८ से प्रेम रखता है । और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिस से हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें अवश्य हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिये तुम्हारे पास बहुत कुछ ९ हो । जैसा लिखा है उस ने बिथराया उस ने कंगालों को १० दान दिया उस का धर्म सदा बना रहेगा । जो बानेवाले को बीज और भोजन के लिये रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवन्त करेगा और तुम्हारे धर्म के ११ फलों को बढ़ाएगा । कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिये जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद १२ करवाती है धनवान किए जाओ । क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती पर लोगों की और से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद

होता है । क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर परमेश्वर १३ की महिमा प्रगट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मान कर उस के अधीन होते हो और उन की और १४ सब की सहायता करने में उदारता करते रहते हो । और वे तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हैं और इसलिये कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है तुम्हारी लालसा करते रहते हैं । परमेश्वर को उस के उस दान के लिये १५ जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो ॥

१०. मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ पर पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूँ तुम को मसीह की नम्रता और कामलता के कारण समझाता हूँ । मैं यह बिनती करता २ हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निडर होकर साहस करना न पड़े जिस से मैं कितनों पर जो हम को शरीर के अनुसार चलनेवाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूँ । क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं ३ तौभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते । क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गडों को दा देने के लिये परमेश्वर के द्वारा<sup>४</sup> सामर्थी हैं । हम कल्पनाओं ५ को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खण्डन करते हैं और हर एक भावना को क्रुद कर लेते हैं कि मसीह की आज्ञा मानें । और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो ६ जाय तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का पलटा लें । तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने हैं ७ यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं । क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के ८ विषय और भी घमण्ड दिखाऊँ जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिये नहीं पर बनाने के लिये हमें दिया है तो लज्जित न हूँगा । यह मैं इसलिये कहता हूँ कि ९ पत्रियों के द्वारा तुम्हें डरानेवाला न ठहरूँ । क्योंकि कहते हैं कि उस की पत्रियां तो गम्भीर और प्रबल हैं पर जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वचन में लचर जान पड़ता है । सो जो ऐसा कहता है वह ११ समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे । क्योंकि १२ हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उन में से कितनों के साथ गिनें या उन से मिलाएँ जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौलकर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं ।

(१) यू० लोम । (२) या कंजूसों से । (३) या उदारता से ।

(४) यू० भरोसे से । (५) या लिए ।

- १३ हम तो सीमा से बाहर घमण्ड न करेंगे पर उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिये ठहरा दी है और उस में तुम भी आ गए हो उसी के अनुसार घमण्ड करेंगे ।
- १४ क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर पांव बढ़ाना नहीं चाहते मानो तुम तक नहीं पहुँचते बरन मसीह का
- १५ सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुँच चुके हैं । और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमण्ड नहीं करते पर हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाए त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार
- १६ तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएँ । कि हम तुम्हारे देश से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएँ और यह नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर
- १७ घमण्ड करें । पर जो घमण्ड करे वह प्रभु पर घमण्ड
- १८ करे । क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वही नहीं पर जिस की बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है ॥

**११. यदि** तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह

- लेते तो क्या ही भला होता
- २ हां मेरी सह भी लेते हो । क्योंकि मैं तुम्हारे विषय ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ इसलिये कि मैं ने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र
- ३ कुंवारी की नाई मसीह के सौंप दूँ । पर मैं डरता हूँ कि जैसे साँप ने अपनी चतुराई से हड्डी का बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सोधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिये कहीं भ्रष्ट न किये जाएँ ।
- ४ यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिस का प्रचार हम ने नहीं किया या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहिले न मिला था या और कोई सुसमाचार जिसे तुम ने पहिले न माना था
- ५ तो तुम्हारा सहना ठीक होता । मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ ।
- ६ यदि मैं वचन में अनाड़ी हूँ तौभी ज्ञान में नहीं पर हम ने यह हर बात में सब पर तुम्हारे लिये प्रगट किया
- ७ है । क्या इस में मैं ने कुछ पाप किया कि मैं ने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेत मेंत सुनाया और अपने
- ८ आप को नीचा किया कि तुम ऊँचे हो जाओ । मैं ने और मण्डलियों को लूटा मैं ने उन से मज़दूरी ली कि
- ९ तुम्हारी सेवा करूँ और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैं ने किसी पर भार नहीं दिया क्योंकि भाइयों ने मक़िदुनिया से आकर मेरी घटी पूरी की और मैं ने हर बात में अपने आप को तुम पर भार होने से
- १० रोका और रोके रहूँगा । यदि मसीह की सच्चाई मुझ में

है तो अखया देश में कोई मुझे इस घमण्ड से न रोकेगा । किसलिये क्या इसलिये कि मैं तुम से प्रेम नहीं रखता ११ परमेश्वर जानता है । पर जो करता हूँ वही करता रहूँगा १२ कि जो लोग दांव दूँदते हैं उन्हें मैं दांव पाने न दूँ कि जिस बात में वे घमण्ड करते हैं उस में से वे हमारे ही समान ठहरें । क्योंकि ऐसे लोग भूटे प्रेरित और छल से १३ काम करनेवाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरनेवाले हैं । और यह कुछ अचम्भे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी १४ ज्योतिभय स्वर्गदूत का रूप धरता है । सो यदि उस के १५ सेवक भी धर्म के सेवकों का सारूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं पर उन का अन्त उन के कामों के अनुसार होगा ॥

मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मूर्ख न समझे नहीं १६ तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो कि थोड़ा सा मैं भी घमण्ड करूँ । इस बेधड़क घमण्ड से बोलने में जो १७ कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं पर मानो मूर्खता से कहता हूँ । जब कि बहुत १८ लोग शरीर के अनुसार घमण्ड करते हैं तो मैं भी घमण्ड करूँगा । तुम तो समझदार होकर आनन्द १९ से मूर्खों की सह लेते हो । क्योंकि जब कोई तुम्हें २० दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुँह पर थपड़ मारता है तो तुम सह लेते हो । मेरा २१ कहना अनादर की रीति पर है मानो कि हम निर्बल से थे । पर जिस किसी बात में कोई हियाव करता है (मैं मूर्खता से कहता हूँ) मैं भी हियाव करता हूँ । क्या वे ही इब्रानी हैं मैं भी हूँ । क्या वे ही इसाईली २२ हैं मैं भी हूँ । क्या वे ही इब्राहीम के वंश हैं, मैं भी हूँ । क्या वे ही मसीह के सेवक हैं (मैं पागल की २३ नाई कहता हूँ) उन से बढ़कर हूँ; अधिक परिश्रम करने में बार बार कैद में कोड़े खाने में बार बार मृत्यु के जोखिमों में । पांच बार मैं ने यहूदियों के हाथ से २४ उन्तालीस उन्तालीस कोड़े खाए । तीन बार मैं ने बेंतें २५ खाई एक बार पत्थरवाह किया गया तीन बार जहाज़ जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए एक रात दिन मैं ने समुद्र में काटा । मैं बार बार यात्राओं में नदियों के जोखिमों में २६ डाकुओं के जोखिमों में अपने जातिवालों से जोखिमों में अन्यजातियों से जोखिमों में नगरों में के जोखिमों में जंगल के जोखिमों में समुद्र के जोखिमों में भूटे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में बार बार २७ जागते रहने में भूख पियास में बार बार उपवास करने में जाड़े में उघाड़े रहने में, और और बातों को छोड़ कर २८

(१) सू० प्रभु की रीति पर ।

सब मण्डलियों की चिन्ता हर दिन मुझे दबाती है ।  
 २९ कौन निर्बल है और मैं निर्बल नहीं कौन ठोकर खाता  
 ३० है और मेरा जी नहीं जलता । यदि घमण्ड करना अवश्य  
 ३१ है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूंगा । प्रभु यीशु  
 का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि  
 ३२ मैं झूठ नहीं बोलता । दमिश्क में अरितास राजा की  
 ओर से जो हाकिम था उस ने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों  
 ३३ के नगर पर पहरा बैठा रक्खा था । और मैं टोकरे में  
 खिड़की से होकर भीत पर से उतारा गया और उस के  
 हाथ से बच निकला ॥

## १२. यद्यपि घमण्ड करना तो मेरे लिये

ठोक नहीं तौभी करना पड़ता  
 है सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा  
 २ करूंगा । मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ चौदह  
 बरस हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित  
 परमेश्वर जानता है और ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक  
 ३ उठा लिया गया । मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ न जाने  
 देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है ।  
 ४ कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनीं  
 जो कहने की नहीं और जिन का मुंह पर लाना मनुष्य  
 ५ को उचित नहीं । ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमण्ड करूंगा  
 परन्तु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने  
 ६ विषय घमण्ड न करूंगा । क्योंकि यदि मैं घमण्ड करना  
 चाहूँ भी तो मूर्ख न हूँगा क्योंकि सच बोलूँगा तौभी रुक  
 जाता हूँ ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या  
 मुझ से सुनता है मुझे उस से बढ़कर न समझे ।  
 ७ और इसलिये कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न  
 जाऊँ शरीर में एक कांटा मानो मुझे घूसे मारने को  
 शैतान का एक दूत मुझे चुभोया? गया कि मैं फूल न  
 ८ जाऊँ । इस के विषय मैं ने प्रभु से तीन बार बिनती की  
 ९ कि मुझ से यह दूर हो जाए । और उस ने मुझ से कहा  
 मेरा अनुग्रह तेरे लिये बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्ब-  
 लता में सिद्ध होती है । सो मैं आनन्द से अपनी निर्बल-  
 ताओं पर घमण्ड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर  
 १० छाया करती रहे । इस कारण मैं मसीह के लिये निर्बल-  
 ताओं और निन्दाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों  
 में और संकटों में प्रसन्न हूँ क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ  
 तब बलवन्त होता हूँ ॥  
 ११ मैं मूर्ख तो बना पर तुम ही ने मुझ से यह काम  
 करवाया । तुम ही को मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी  
 क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तौभी उन बड़े से बड़े प्रेरितों

(१) यू० । दिया ।

से किसी बात में घटकर नहीं था । प्रेरित के लक्षण भी १२  
 तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और  
 अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए ।  
 कौन सी बात में तुम और और मण्डलियों से घटकर थे १३  
 केवल इस में कि मैं ने तुम पर अपना भार न रक्खा ।  
 मेरा यह अन्याय क्षमा करो ॥

देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ १४  
 और मैं तुम पर कोई भार न रक्खूँगा क्योंकि मैं तुम्हारी  
 सम्पत्ति नहीं पर तुम ही को चाहता हूँ क्योंकि लड़के  
 वालों को माता पिता के लिये धन बटोरना न चाहिए  
 पर माता पिता को लड़के वालों के लिये । मैं तुम्हारे १५  
 प्राणों के लिये बहुत आनन्द से खरच करूँगा वरन आप  
 भी खरच हो जाऊँगा । क्या जितना बढ़कर मैं तुम से  
 प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझ से प्रेम रखोगे ।  
 सो ऐसा हो सकता है कि मैं ने तुम पर बोझ नहीं डाला १६  
 पर चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया । भला १७  
 जिन्हें मैं ने तुम्हारे पास भेजा क्या उन में से किसी के  
 द्वारा मैं ने छल करके तुम से कुछ ले लिया । मैं ने १८  
 तितुस को समझाकर उस के साथ उस भाई को भेजा सो  
 क्या तितुस ने छल करके तुम से कुछ लिया । क्या हम  
 एक ही आत्मा के चलाए न चले । क्या एक ही लीक  
 पर न चले ॥

तुम अभी तक समझ रहे हो कि हम तुम्हारे सामने १९  
 उज़र कर रहे हैं हम तो परमेश्वर को हाज़िर जान-  
 कर मसीह में बोलते हैं और हे प्यारो सब बातें तुम्हारी  
 उन्नति के लिये कहते हैं । क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा २०  
 न हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूँ वैसे तुम्हें न पाऊँ  
 और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ कि  
 तुम में भगड़ा डाह क्रोध विरोध गीबत चुगली अभिमान  
 और बखेड़े हों । और मेरा परमेश्वर कहीं मुझे फिर आने २१  
 पर तुम्हारे यहां हेठा करे और मुझे बहुतों के लिये शोक  
 करना पड़े जिन्होंने ने पहिले पाप किया था और उस गन्दे  
 काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने ने किया  
 मन नहीं फिराया ॥

## १३. अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ ।

दो या तीन गवाहों के मुंह से हर  
 एक बात ठहराई जायगी । जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे २  
 साथ था तों वैसे ही अब दूर रहने हुए उन लोगों से  
 जिन्होंने ने पहिले पाप किया और और सब लोगों से अब  
 पहिले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं

(२) या० । मानी दूसरी बार हाज़िर हाकर ।

३ छोड़ूंगा । तुम तो इस का प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है जो तुम्हारे लिये निर्बल नहीं पर तुम ४ में सामर्थी है । वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया तौभी परमेश्वर की सामर्थ से जीता है हम भी तो उस में निर्बल हैं परन्तु परमेश्वर की सामर्थ से जो ५ तुम्हारे लिये है उस के साथ जीएंगे । अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं अपने आप को जांचो । क्या तुम अपने विषय नहीं जानते कि यीशु मसीह ६ तुम में है नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो । पर मेरी ७ आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं । और हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो इसलिये नहीं कि हम खरे देख पड़ें पर इसलिये कि तुम भलाई करो चाहे हम निकम्मे ही ८ ठहरें । क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर ९ सकते पर सत्य के लिये कर सकते हैं । जब हम निर्बल

हैं और तुम बलवन्त हो तो हम आनन्दित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ । इस १० कारण मैं पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि हाज़िर होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिये नहीं पर बनाने के लिये मुझे दिया है कड़ाई से कुछ करना न पड़े ॥

निदान हे भाइयो आनन्द रहे सिद्ध हो जाओ ११ शांत होओ एक ही मन रखो मेल से रहे और प्रेम और शान्ति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा । एक १२ दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो । सब पवित्र लोगों का तुम्हें नमस्कार । प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह १३ और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता १४ तुम सब के साथ रहे ॥

(१) या । संगति ।

## गलतियों के नाम पौलुस प्रारत की पत्री ।

१. पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा बरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिस ने उस को २ मरे हुआओं में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलतियों की भण्डालियों के नाम । ३ परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें ४ अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे । उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिये दे दिया कि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्त्तमान बुरे संसार से ५ छुड़ाए । उस की बड़ाई युगानुयुग होती रहे । आमीन ॥ ६ मुझे अचरज होता है कि जिस ने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उस से तुम और ही प्रकार के सुस- ७ माचार की ओर ऐसे जल्दी फिर जाते हो । और वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें बबरा देते और मसीह के सुसमाचार ८ को बदल डालना चाहते हैं । पर यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हम ने तुम को सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो सापित ९ हो । जैसा हम पहिले कह चुके वैसा ही मैं अब फिर

कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुम ने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो सापित हो । अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर १० को । क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ । यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता ॥

हे भाइयो मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमा- ११ चार मैं ने सुनाया वह मनुष्य का सा नहीं । क्योंकि १२ वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला । यहूदी १३ मत में जो पहिले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था । और अपने बहुत जातिवालों से जो मेरी १४ उमर के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता रहा और अपने बापदादों के व्यवहारों में बहुत ही धुन लगाए था । परन्तु १५ परमेश्वर की जिस ने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया जब इच्छा हुई, कि मुझ में अपने पुत्र को प्रगट करे कि मैं अन्यजातियों १६ में उस का सुसमाचार सुनाऊं तो न मैं ने मांस और

- १७ लोहू से सलाह ली, और न यरूशलेम को उन के पास गया जो मुझ से पहिले प्रेरित थे पर तुरन्त अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया ॥
- १८ फिर तीन बरस के पीछे मैं केफा से भेंट करने को यरूशलेम गया और उस के यहां पन्द्रह दिन रहा ।
- १९ परन्तु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में
- २० से किसी से न मित्रता । जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं देखो परमेश्वर को हाज़िर जानकर कहता हूं
- २१ कि वे झूठी नहीं । इस के पीछे मैं सूरिया और
- २२ किलकिया के देशों में आया । पर यहूदिया की मण्डलियों ने जो मसीह में थीं मेरा मुंह तो न
- २३ देखा था । पर यह सुना करती थीं कि जो हमें पहिले सताता था वह अब उसी मत का सुसमाचार सुनाता है
- २४ जिसे पहिले नाश करता था । और मेरे विषय परमेश्वर की महिमा करती थीं ।

**२. चौदह** बरस के पीछे मैं बरनबा के साथ फिर यरूशलेम को गया

- २ और तितुस को भी साथ ले गया । और मेरा जाना प्रकाश के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार मैं अन्यजातियों में प्रचार करता हूं उस को मैं ने उन्हें बताया पर एकान्त में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या अग्रणी दौड़
- ३ धूप व्यर्थ ठहरे । परन्तु तितुस पर भी जो मेरे साथ था और यूनानी है खतना कराने का भार न रक्खा गया ।
- ४ और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतन्त्रता का जो मसीह यीशु में
- ५ हमें मिली है मेद लेकर हमें दास बनाएं । उन के अधीन होना हम ने एक षड़ी भर न माना इसलिये कि
- ६ सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे । फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे (वे चाहें कैसे ही थे मुझे इस से कुछ काम नहीं परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता) उन से जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ नहीं मिला ।
- ७ ऐसा ही नहीं पर जब उन्होंने ने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिये सुसमाचार पतरस को वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा
- ८ गया । (क्योंकि जिस ने पतरस से खतना किए हुए लोगों में की प्रेरिताई का कार्य करवाया उसी ने मुझ से भी
- ९ अन्यजातियों में कार्य करवाया) । और जब उन्होंने ने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खम्भे समझे जाते थे मुझ को और बरनबा को दहिना हाथ

देकर संग कर लिया कि हम अन्यजातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुएों के पास । केवल यह कहा कि १० हम कंगालों की सुध लें और इसी काम के करने का मैं आप यत्न कर रहा था ॥

पर जब केफा अन्ताकिया में आया तो मैं ने ११ मुंहामुंह उस का सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था । इसलिये कि याकूब की आंर से कितने लोगों के १२ आने से पहिले वह अन्यजातियों के साथ खाया करता था पर जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे हटा और किनारा करने लगा । और उस के १३ साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया यहां तक कि बरनबा भी उन के कपट में पड़ गया । पर जब मैं ने १४ देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते तो मैं ने सब के सामने केफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्यजातियों की नाईं चलता है और यहूदियों की नाईं नहीं तो तू अन्यजातियों को यहूदियों की नाईं क्यों चलने को कहता है । हम जो १५ जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्यजातियों में से नहीं, तौभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं १६ पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मा ठहरता है हम ने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मा ठहरें इसलिये कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मा न ठहरेंगा । हम जो मसीह १७ में धर्मा ठहरना चाहते हैं यदि आपही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है । ऐसा न हो । क्योंकि जो कुछ मैं ने गिरा दिया यदि उसी का फिर १८ बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं । मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिये मरा कि १९ परमेश्वर के लिये जीऊं । मैं मसीह के साथ क्रूस पर २० चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीता न रहा पर मसीह मुझ में जीता है और मैं शरीर में अब जो जीता हूं तो उस विश्वास में जीता हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिस ने मुझ से प्रेम किया और मेरे लिये अपने आप को दे दिया । मैं परमेश्वर के अनुग्रह को २१ व्यर्थ नहीं ठहराता क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता ॥

**३. हे** निर्बुद्धि गलतियों किस ने तुम्हें मोह लिया है । तुम्हारी मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया । मैं तुम से २ केवल यह जानना चाहता हूं कि तुम ने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से

- ३ पाया । क्या तुम ऐसे निबुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अन्त करोगे । क्या तुम ने इतना दुख योंही उठाया पर क्या जाने योही नहीं । जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करवाता है वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है । इब्राहीम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उस के लिये धार्मिकता गिनी गई । ७ सो यह जान लो कि जो विश्वास करनेवाले हैं वे ही ८ इब्राहीम के सन्तान हैं । और पवित्र शास्त्र ने पहिले ही से यह जान कर कि परमेश्वर अन्यजातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा पहिले ही से इब्राहीम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशिष ९ पाएंगी । सो जो विश्वास करनेवाले हैं वे विश्वासी १० इब्राहीम के साथ आशिष पाते हैं । सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब साप के अधीन हैं क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने को उन में बना नहीं ११ रहता वह सापित है । पर यह बात प्रगट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता क्योंकि १२ धर्मी जन विश्वास से जीता रहेगा । पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ सम्बन्ध नहीं पर जो उन का मानेगा १३ वह उन के कारण जीता रहेगा । मसीह ने जो हमारे लिये स्थापित बना हम माल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया १४ जाता है वह सापित है । यह इसलिये हुआ कि इब्राहीम की आशिष मसीह यीशु में अन्यजातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिस की प्रातिज्ञा हुई है ॥
- १५ हे भाइयों मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई १६ उसे टालता और न उस में कुछ बढ़ाता है । फिर प्रतिज्ञाएं इब्राहीम को और उस के वश को दी गई । वह यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय पर जैसे एक के विषय तैरे वंश को १७ और वह मसीह है । पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहिले से पक्की की थी उस को व्यवस्था चार सौ तीस बरस पीछे आकर नहीं टाल १८ देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे । क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं परन्तु १९ परमेश्वर ने इब्राहीम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है । सो
- (१) सू० । की प्रतीति को ।

व्यवस्था क्या रही वह अपराधों के कारण पीछे से दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिस को प्रतिज्ञा दी गई थी और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक बिचवई के हाथ ठहराई गई । बिचवई तो एक का नहीं होता परन्तु २० परमेश्वर एक ही है । सो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है । ऐसा न हो क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सच-सुच धार्मिकता व्यवस्था से होती । परन्तु पवित्र शास्त्र २१ ने सब को पाप के अधीन कर दिया कि वह प्रतिज्ञा जिस का आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है विश्वास करनेवालों के लिये पूरी हो जाए ॥

पर विश्वास के आने से पहिले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रगट होनेवाला था हम उसी के बन्धन में रहे । सो व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें । पर जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहें । क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के सन्तान हो । और तुम में से जितने ने मसीह में अपतिसमा लिया उन्होंने ने मसीह को पहिन लिया । अब न कोई यहूदी रदा न यूनानी न कोई दास न स्वतंत्र न कोई नर न नारी क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो । और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहीम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो ॥

### ४. मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक

बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है पर उस में और दास में कुछ भेद नहीं । परन्तु पिता के ठहराए हुए समय तक रत्नकों और भण्डारियों के वश में रहता है । वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे । पर जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, इसलिये कि व्यवस्था के अधीनों को माल लेकर छुड़ा ले और हम को लोगलक होने का पद मिले । और तुम जो पुत्र हो इसलिये परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है । सो तू अब दास नहीं परन्तु पुत्र है और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ ॥

भला तब तो तुम परमेश्वर को न जान कर उन के दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं । पर अब जो तुम ने परमेश्वर को पहचाना बरन परमेश्वर ने तुम को पह-

चाना तो उन निर्बल और निकम्मी आदि-शिक्षा की बात की ओर क्यों फिरते हो जिन के तुम फिर दास होना १० चाहते हो । तुम दिनों और महीनों और नियत समयों ११ और बरसों को मानते हो । मैं तुम्हारे विषय डरता हूँ कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैं ने तुम्हारे लिये किया है वह व्यर्थ ठहरे ॥

१२ हे भाइयो मैं तुम से बिनती करता हूँ तुम मेरे समान हो जाओ क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ १३ तुम ने मेरा कुछ विगाड़ा नहीं । पर तुम जानते हो कि पहिले पहिल मैं ने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें १४ सुसमाचार सुनाया । और तुम ने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी वृच्छ न जाना न उस से घिन की और परमेश्वर के दूत बरन मसीह के १५ समान मुझे ग्रहण किया । तो वह तुम्हारा आनन्द मनाना कहा गया । मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपना आँखें भी निकालकर मुझे दे देते । १६ तो क्या तुम से सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा घेरी बन गया हूँ । वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भली मनसा में नहीं बरन तुम्हें अलग कराना चाहते हैं १७ कि तुम उन्हीं को मित्र बनाना चाहो । पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता १८ हूँ । हे मेरे बालको जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिये फिर जनने की सी २० सोई सहता हूँ, जी चाहता है कि अब तुम्हारे पास होकर और ही प्रकार में बोलूँ क्योंकि तुम्हारे विषय मुझे सन्देह है ॥

२१ तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझ २२ से कहा क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते । यह लिखा है कि इब्राहीम के दो पुत्र हुए एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से । पर जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा । इन बातों में दृष्टान्त है ये स्त्रियाँ मानो दो वाचा हैं एक तो मीना पहाड़ की जिस से दास ही २५ उत्पन्न होते हैं और वह हाजिरा है । और हाजिरा मानो अब का सीना पहाड़ है और अब की यरूशलेम के तुल्य २६ है और अपने बालकों समेत दासत्व में है । पर ऊपर की २७ यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है । क्योंकि लिखा है हे बाँभ तू जो नहीं जानती आनन्द कर तू जिस को पीड़ें नहीं लगती गला खोलकर जय जयकार कर क्योंकि त्यागी हुई के सन्तान सुहागिन के सन्तान से भी २८ बहुत है । हे भाइयो हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा के

सन्तान है । और जैसा उस समय शरीर के अनुसार २९ जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था वैसा ही अब भी होता है । परन्तु पवित्र शास्त्र क्या ३० कहता है । दासी और उस के पुत्र को निकाल दे क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ वारिस न होगा । सो हे भाइयो हम दासी के नहीं पर स्वतंत्र स्त्री ३१ के सन्तान हैं । मसीह ने स्वतंत्रता के लिये हमें ५. स्वतंत्र किया है सो हम में बने रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुतो ॥

देखो मैं पौलुस तुम से कहता हूँ कि यदि स्वतना २ कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा । फिर ३ भी मैं हर एक स्वतना करानेवाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी । तुम जो व्यवस्था के ४ द्वारा धर्मा ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो । क्योंकि आत्मा के कारण हम ५ विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं । और मसीह यीशु में न स्वतना न स्वतना रहित होना ६ कुछ काम का है पर विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है । तुम तो भली भाँति दौड़ रहे थे अब किस ने तुम्हें रोक ७ दिया कि सत्य को न मानो । ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने- ८ वाले की ओर से नहीं । थोड़ा सा इमीर सारे गुंघे हुए ९ आटे को इमीर कर डालता है । मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय १० भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा पर जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दण्ड पाएगा । पर हे भाइयो यदि मैं अब तक स्वतना ११ का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ । फिर क्रूस की ओर जाती रही । भला होता कि जो तुम्हें १२ डाँवाडोल करते हैं वे अपने ही को काट डालते ॥

हे भाइयो तुम स्वतंत्र होने के लिये बुलाए गए १३ पर ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिये अवसर बने बरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो । क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती १४ है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख । पर १५ यदि तुम एक दूसरे को दाँत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न करो ॥

पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम १६ शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न कराओगे । क्योंकि १७ शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं इस-लिये कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ । और यदि तुम आत्मा के चलाये चलते हो तो व्यवस्था के १८



- १९ अधीन न रहे । शरीर के काम प्रगट हैं सो ये हैं व्यभि-  
 २० चार गन्दे काम लुचपन, मूर्ति पूजा टोना बैर भगड़ा  
 २१ ईर्षा क्रोध विरोध फूट विधर्म । डाह मतवालपन लीला  
 क्रीड़ा और इन के ऐसे और और काम इन के विषय में  
 तुम को पहले से कहे देता हूं जैसा पहिले कह चुका हूं  
 कि ऐसे ऐसे काम करनेवाले परमेश्वर के राज्य के वारिस  
 २२ न होंगे । पर आत्मा का फल प्रेम आनन्द मेल धीरज  
 २३ कृपा भलाई विश्वास, नम्रता और संयम है ऐसे ऐसे कामों  
 २४ के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं । और जो मसीह यीशु  
 के हैं उन्हों ने शरीर को उस के लालसाओं और अभि-  
 लाषों समेत क्रूस पर चढ़ाया है ॥
- २५ यदि हम आत्मा से जीते हैं तो आत्मा के अनुसार  
 २६ चलें भी । हम घमण्डा होकर न एक दूसरे को छेड़ें और  
 न एक दूसरे से डाह करें ॥

**६. हे** भाइयो यदि कोई मनुष्य किसी अप-  
 राध में फस जाए तो तुम जो आत्मिक  
 हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी  
 २ चौकसी रख कि तू भी परीक्षा में न पड़े । एक दूसरे के  
 भार उठाओ और यों मसीह की व्यवस्था को पूरी करो ।  
 ३ क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ  
 ४ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है । पर हर  
 एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय  
 नहीं पर अपने ही विषय उस को घमण्ड करने की  
 ५ जगह होगी । क्योंकि हर एक जन अपना ही बोझ  
 उठाएगा ॥

६ जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी

(१) यू० । नम्रता के आरम्भ ।

वस्तुओं में सिखानेवाले को भागी करे । बोखा न खाओ ।  
 परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो  
 कुछ बोता है वह काटेगा । क्योंकि जो अपने शरीर के  
 लिये बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी  
 काटेगा और जो आत्मा के लिये बोता है वह आत्मा के  
 द्वारा अनन्त जीवन की कटनी काटेगा । हम भले काम  
 करने में हियाब न छाड़ें क्योंकि यदि हम ठीले न हों तो  
 ठीक समय पर कटनी काटेंगे । इसलिये जहां तक अवसर  
 १० मिले हम सब के साथ भलाई करें विशेष करके विश्वासी  
 भाइयों के साथ ॥

देखो मैं ने कैसे बड़े बड़े अन्तों में तुम को अपने  
 हाथ से लिखा है । जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते  
 हैं वे तुम्हारा झतना करवाने पर बल देते हैं केवल इस  
 लिये कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं ।  
 क्योंकि झतना करानेवाले आप तो व्यवस्था पर नहीं  
 चलते पर तुम्हारा झतना कराना इसलिये चाहते हैं कि  
 तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमण्ड करे । पर ऐसा न हो  
 कि मैं और किसी बात का घमण्ड करूं केवल हमारे प्रभु  
 यीशु मसीह के क्रूस का जिस के द्वारा ससार मेरे लेखे  
 और मैं ससार के लेखे क्रूस पर चढ़ाया गया हूं । क्योंकि  
 न झतना और न झतना रहित होना कुछ है पर नई  
 सृष्टि । और जितने इस नियम पर चलें उन पर और पर  
 १६ मेश्वर के इसाईल पर शान्ति और दया होती रहे ॥

आगे को कोई मुझे दुख न दे क्योंकि मैं यीशु के  
 दागों को अपनी देह में लिये फिरता हूं ॥

हे भाइयो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह  
 तुम्हारे आत्मा के साथ रहे । आमीन ॥

## इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री ।

**१. पौलुस** की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से  
 यीशु मसीह का प्रेरित है उन पवित्र  
 और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफि-  
 सुस में हैं ॥

२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की  
 और से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता

का धन्यवाद हो कि उस ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों  
 में सब प्रकार की आशिष दी । जैसा उस ने हमें  
 जगत की उत्पत्ति से पहिले उस में चुन लिया कि हम  
 उस के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों । और  
 अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिये  
 पहिले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उस के

(१) यू० । आशिष से आशिष ।

- ६ लौपालक पुत्र हों, कि उस के उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उस ने हमें उस प्यारे में सेंटमेंत दिया ।
- ७ हम को उस में उस के लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात् अपराधों की क्षमा उस के उस अनुग्रह के धन के अनु-  
८ सार मिला है, जिसे उस ने सारे ज्ञान और समझ सहित
- ९ हम पर बहुतायत से किया, कि उस ने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उस ने
- १० अपने आप में ठान लिया था, कि समय समय के पूरे होने का ऐसा प्रबन्ध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथिवी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र
- ११ करे । उसी में, जिस में हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है
- १२ पहिले से ठहराए जाकर मीरास बने । कि हम जिन्होंने पहिले से मसीह पर आशा रखी थी उस की महिमा की
- १३ स्तुति के कारण हों । और उसी में तुम पर भी जब तुम ने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुम ने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए
- १४ पवित्र आत्मा की छाप लगी । वह उस के मोल लिए हुआ के छुटकारे के लिये हमारी मीरास का बयाना है कि उस की महिमा की स्तुति हो ॥
- १५ इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुन कर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र
- १६ लोगों पर प्रगट है, तुम्हारे लिये धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता
- १७ हूँ । कि हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा
- १८ दे । और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिमय हों कि तुम जानो कि उस के बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उस की मीरास की महिमा का धन कैसा
- १९ है । और उस की सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कि कितनी महान् है उस की शक्ति के प्रभाव के उस
- २० कार्य के अनुसार, जो उस ने मसीह के विषय किया कि उस को मरे हुआ में से जिला कर स्वर्गीय स्थानों में
- २१ अपनी दहिनी ओर, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आनेवाले लोक में
- २२ भी लिया जाएगा बैठाया । और सब कुछ उस के पाँवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर सिर ठहरा कर
- २३ कलीसिया को दे दिया । यह उस की देह है और उसी की भरपूरी है जो सब में सब कुछ भरता है ॥

(१) य० । सपनों । (२) या । तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों से है ।

२. और उस ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे । इन में तुम पहिले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात् उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न माननेवालों में काय्य करता है । इन में हम भी सब के सब पहिले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएँ पूरी करते थे और और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के सन्तान थे । परन्तु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिस से उस ने हम से प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया (अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है), और मसीह यीशु में उस के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उस के साथ बैठाया । कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आनेवाले समयों में अपने अनुग्रह का महा धन दिखाए । क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमण्ड करे । क्योंकि हम उस के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिये मिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से तैयार किया कि हम उन्हें किया करें ॥
- इस कारण स्मरण करा कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्यजाति हो (और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतनावाले कहलाते हैं वे तुम के खतना रहित कहते हैं) तुम लोग उस समय में मसीह से अलग और इस्राइल की प्रजा के पद से नियारे किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे । पर अब ता मसीह यीशु में तुम जो पहिले दूर थे मसीह के लोहू के द्वारा निकट किए गए हो । क्योंकि वही हमारा मेल है जिस ने दोनों को एक कर लिया और अलग करनेवाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया । और अपने शरीर में बैर अर्थात् वह व्यवस्था जिस की आज्ञाएँ विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे । और क्रूस पर बैर को नाश करके इस के द्वारा दोनों को एक देह में परमेश्वर से मिलाए । और उस ने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल का सुसमाचार सुनाया । क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है । इसलिये तुम अब ऊपरी लोग और विदेशी नहीं रहे

१९

परन्तु पवित्र लोगों के संगी पुरवासी और परमेश्वर के  
२० धराने के हो गए । और प्रेरितों और नबियों की नेव पर  
जिस के कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए  
२१ गए हो । जिस में सारी रचना एक साथ जुटकर प्रभु में  
२२ एक पवित्र मन्दिर बनती जाती है । जिस में तुम भी  
आत्मा के द्वारा परमेश्वर का बासा होने के लिये एक  
साथ बनाए जाते हो ॥

**३. इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य**

जातियों के लिये मसीह यीशु का  
२ बन्धुआ हूँ—यदि तुम ने, परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबन्ध  
का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिये मुझे दिया गया ।  
३ अर्थात् यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रगट  
४ हुआ जैसा मैं पहिले सत्तेप में लिख चुका हूँ । जिस से  
तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद  
५ कहां तक समझता हूँ । जो और और समयों में मनुष्यों  
के सन्तानों को ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि  
आत्मा के द्वारा अब उस के पवित्र प्रेरितों और नबियों  
६ पर प्रगट किया गया है । अर्थात् यह कि मसीह यीशु में  
सुसमाचार के द्वारा अन्यजातीय लोग मीरास में साझी  
७ और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं । और मैं  
परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उस की  
सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुस-  
८ माचार का सेवक बना । मुझ पर जो सब पवित्र लोगों  
में से छोटे से भी छोटा हूँ यह अनुग्रह हुआ कि मैं  
अन्यजातियों का मसीह के अग्रगण्य धन का सुसमाचार  
९ सुनाऊँ । और सब पर यह बात प्रकाश करूँ कि उस  
भेद का प्रबन्ध क्या है जो सब के सृजनहार परमेश्वर  
१० में आदि से गुप्त था । इसलिये कि अब कलीसिया के  
द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों  
और अधिकारियों पर जो स्वर्गाय स्थानों में हैं प्रगट  
११ किया जाए । उस सनातन मनसा के अनुसार जो उस ने  
१२ हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी । जिस में हम को उस  
पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने  
१३ का अधिकार है । इसलिये मैं विनती करता हूँ कि जो  
क्लेश तुम्हारे लिये मुझे हो रहे हैं उन के कारण हियाव  
न छोड़ो क्योंकि उन में तुम्हारी महिमा है ॥

१४ मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता  
१५ हूँ, जिससे क्या स्वर्ग में क्या पृथिवी पर हर एक धराने  
१६ का नाम रक्खा जाता है । कि वह अपनी महिमा के धन  
के अनुसार तुम्हें यह दे कि तुम उस के आत्मा से अपन

भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवन्त हो जाओ,  
और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि  
१७ तुम प्रेम में जड़ बंधे हुए और नेव डाले हुए, सब पवित्र  
१८ लोगों के साथ धूमने की शक्ति पाओ कि उस का  
चौड़ाई और लम्बाई और ऊंचाई और गहराई कितनी  
है, और मसीह के प्रेम को जानो जो ज्ञान से परे है कि  
१९ तुम परमेश्वर की मारी भरपूरी लों भरपूर हो जाओ ॥

अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और  
२० समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के  
अनुसार जो हम में कार्य करनी है, कलीसिया में और  
२१ मसीह यीशु में उस की महिमा पीढ़ी से पीढ़ी लों युगा-  
नुयुग होगी रहे । आमीन ॥

**४. सो मैं जो प्रभु में बन्धुआ हूँ तुम में**

विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट  
से तुम बुलाए गए थे उस के योग्य चाल चलो । अर्थात्  
२ सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम  
से एक दूसरे की सह लो । और मेल के बन्ध में आत्मा  
३ की एकता रखने का यत्न करो । एक ही देह है और एक  
४ ही आत्मा जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए  
जाने से एक ही आशा है । एक ही प्रभु एक ही विश्वास  
५ एक ही बपातसमा । सब का एक ही परमेश्वर और पिता  
६ जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है ।  
पर हम में से हर एक का मसीह के दान के परिमाण में  
७ अनुग्रह मिला है । इसलिये वह कहता है कि वह ऊंचे  
८ पर चढ़ा और बन्धुवाई को बांध ल गया और मनुष्यों  
को दान दिए । (उम के चढ़ने से आर क्या पाया जाता  
९ है केवल यह कि वह पृथिवी की निचली जगहों में उतरा  
भी था । जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से  
१० ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ भरपूर करे) और  
११ उस ने कितनों को प्रेरित करके और कितनों को नबो  
करके और कितनों का सुसमाचार सुनानेवाले करके और  
कितनों को रखवाले और उपदेशक करके दे दिया ।  
जिस से पवित्र लोग निद्र हो जाए और सेवा का काम  
१२ किया जाए और मसीह की देह उजात पाए । जब तक  
१३ कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की  
पहचान में एक न हो जाएं और एक पूरा मनुष्य न  
बनें और मसीह के पूरे डील तक न बढ़ें । इसलिये कि  
१४ हम बालक न रहें जो मनुष्यों की ठगावट्या और चतु-  
राई से उन के भ्रम की जुगतों की और उपदेश की हर  
एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों ।  
प्रेम में सत्य से चलते हुए सब बातों में उस में जो  
१५ सिर है अर्थात् मसीह में बढ़ते जाएं । जिस से सारी देह  
१६

हर एक जोड़ के द्वारा एक साथ जुटकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण में उस में होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए ॥

- १७ तो मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्यजातीय लोग अपने मन की अनर्थ गीति पर १८ चलते हैं तुम अब फिर ऐसे न चलो । कि उन की बुद्धि अंधेरी हुई है और उस अज्ञानता के कारण जो उन में है उन के मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के १९ जीवन से अलग किए हुए हैं । और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गन्दे काम लालसा २० से किया करें । पर तुम ने मसीह को ऐसा नहीं सीखा । २१ जब कि तुम ने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु २२ में सत्य है उसी में सिखाए गए कि अगले चालचलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमानेवाली अभिलाषों के २३ अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो । और अपने २४ मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ । और नए मनुष्यत्व का पहिन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और अविचलता में मिरजा गया है ॥
- २५ इस कारण झूठ बोलना छोड़ कर हर एक अपने पड़ेसी से सच बोलें क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं । क्रोध तो करो पर पाप न करो सूरज के डूबने २६ तक तुम्हारा कोप न रहे । और न शैतानों का अवसर २७ दो । चोरी करनेवाला फिर चोरी न करे बरन मला काम करने में हाथों से मिहनत कर हमलिये कि जिसे प्रयोजन २८ हो उसे देने को उस के पास कुछ हो । कोई गन्दी बात तुम्हारे मुँह से न निकले पर आवश्यकता के अनुसार २९ वही जो उन्नति के लिये अच्छी हो कि उस से सुननेवालों पर अनुग्रह हो । और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को उदास न करो जिस से ३० तुम पर छुटकारे के दिन के लिये छाप दी गई । सब प्रकार का कड़वाहट और कोप और क्रोध और कलह और निन्दा सब बैरभाव समेत तुम ३१ से दूर की जाए । और एक दूसरे पर कुगल और कुरूपणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो ॥

**५. सो** प्यारे बाली की नाईं परमेश्वर के समान बने । और प्रेम में

- २ चलो जैसे मसीह ने भी तुम से प्रेम किया और हमारे लिये अपने आप को सुखदायक सुगन्ध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट और बलिदान करके सौंप दिया । और जैसा

(१) यू० । ३५लीस । (२) यू० । में ।

पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो । और न निर्लज्जता न मूढता की बातचीत की न ठट्टे की क्योंकि ये बातें मोहता नहीं बरन धन्यवाद ही सुना जाय । क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्याभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजनेवाले के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं । कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न माननेवालों पर पड़ता है । सो तुम उन के सामी न हो । क्योंकि तुम पहले अंधकार थे पर अब प्रभु में ज्योति हो सो ज्योति के सन्तान की नाईं चलो । क्योंकि उजाले का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है । और यह परखो कि प्रभु का क्या भाग है । और १०, ११ अंधकार के निष्फल कामों में भागी न हो बरन उन पर उलाहना दो । क्योंकि उन के गुम कामों की चर्चा भी लाज की बात है । पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रगट होते हैं क्योंकि जो कुछ प्रगट किया जाता है वह ज्योति होता है । इस कारण वह कहता है हे सोनेवाले जाग और मरे हुआ में से जी उठ और मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी ॥

सो ध्यान से देखो कि कैसा चाल चलते हो । निर्बुद्धियों की नाईं नहीं पर बुद्धिमानों की नाईं चलो । और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं । इस कारण से निर्बुद्धि न हो पर समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है । और दाखरस से मतवाले न बने कि इस से लुचपन हाता है पर आत्मा से भरपूर होने जाओ । और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गान और कीर्तन करते रहो । और सदा सब बातों के हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो । और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन हो ॥

हे पत्नियो अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के । क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धारकर्ता हैं । पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें । हे पत्नियो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उस के लिये दे दिया । कि उस को बचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए । और उसे एक ऐसी तेजस्वी

२७

कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिस में न कलंक न झुर्नी न कोई और ऐसी वस्तु हो बरन पवित्र और २८ निर्दोष हो । यों ही उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे जो अपनी पत्नी से प्रेम २९ रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है । क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रक्खा बरन उस को ३० पालता पोसता है जैसा मसीह भी कलीसिया को । इस- ३१ लिये कि हम उस की देह के अंग हैं । इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और ३२ वे दोनों एक तन होंगे । यह भेद तो बढ़ा है पर मैं ३३ मसीह और कलीसिया के विषय कहता हूँ । पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पुरुष का भय माने ॥

**६. हे** बालको प्रभु में अपने माता पिता का कहा मानो क्योंकि यह ठीक है ।

२ अपनी माता और पिता का आदर कर (यह पहिली ३ आज्ञा है जिस के साथ प्रतिज्ञा भी है) कि तेरा भला ४ हो और तू धरती पर बहुत दिन जीता रहे । और हे बच्चेवालो अपने बच्चों को रिस न दिलाओ परन्तु प्रभु की शिक्षा और चिंतावनी देते हुए उन का पालन करो ॥

५ हे दासो जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं अपने मन की सीधार्ई से डरते और कांपते हुए जैसे ६ मसीह की वैसे ही उन की आज्ञा मानो । और मनुष्यों को प्रसन्न करनेवालों की नाई दिखाने के लिये सेवा न करो पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की ७ इच्छा पर चलो । और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं ८ परन्तु प्रभु की जानकर मुर्ति से करो । क्योंकि तुम जानते हो कि जो नाई जैसा अच्छा काम करेगा चाहे दास हो ९ चाहे स्वतंत्र प्रभु से वैसा ही पाएगा । और हे स्वामियो तुम भी धमकियां छोड़ कर उन के साथ वैसा ही व्यवहार करो क्योंकि जानते हो कि उन का और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता ॥

निदान प्रभु में और उस की शक्ति के प्रभाव में १० बलवन्त बने । परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि ११ तुम शैतान' की जुगतों के सामने खड़े रह सको । क्योंकि हमारा यह लड़ना लोहू और मांस से नहीं परन्तु १२ प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अध-कार के हाकिमों से और आकाश में की दुष्टता की आत्मिक सेना से है । इसलिये परमेश्वर के सारे हथियार १३ बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके खड़े रह सको । सो सत्य से अपनी कमर १४ कसकर और धार्मिकता की भिलम पहिन कर, और पांवों १५ में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूतें पहिन कर खड़े रहे । और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लो जिस १६ से तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकेगो । और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार १७ जो परमेश्वर का वचन है ले लो । और हर समय और १८ हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और बिनती करते रहे और इसी लिये जागते रहे कि सब पवित्र लोगों के लिये लगातार बिनती किया करो । और मेरे लिये भी कि १९ मुझे बोलने के समय ऐसा वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बताऊँ जिस के लिये मैं जंजीर से जकड़ा हुआ दूत हूँ । और यह भी २० कि मैं उस के विषय जैसा मुझे चाहिए हियाव में बोलूँ ॥

और इसलिये कि तुम भी मेरी दशा जानो कि २१ मैं कैसा रहता हूँ तुखिकुस जो प्यारा भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है तुम्हें सब बातें बताएगा । उसे २२ मैं ने तुम्हारे पास इसी लिये भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मन को शान्ति दे ॥

परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से २३ भाइयों को शान्ति और विश्वास सहित प्रेम मिले । जो २४ हमारे प्रभु यीशु मसीह से अटल प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

(१) यू० । इबलास ।

# फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री ।

१. मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं अध्यात्मी २ और सेवकों समेत । हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

३ मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ । और जब कभी तुम सब के लिये विनती करता हूँ तो सदा आनन्द के साथ ५ विनती करता हूँ । इसलिये कि तुम पहिले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में साभी रहे हो । ६ और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिस ने तुम में अच्छा काम आरम्भ किया है वह उसे यीशु मसीह के ७ दिन तक पूरा करेगा । जैसा ठीक है कि मैं तुम सब के लिये ऐसा ही विचार करूँ इस कारण कि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी क़ैद में और सुसमाचार के लिये उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनु- ८ ग्रह में भागी हो । इस में परमेश्वर मेरा गवाह है कि मसीह यीशु की सी करुणा से मैं कैसे तुम सब की लालसा ९ करता हूँ । और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी १० बढ़ता जाए । यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातें प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे रहे और ११ ठोकर न खाओ । और धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर हो कि परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे ॥

१२ हे भाइयो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि जो मुझ पर बीता है उस से सुसमाचार की बढ़ती ही १३ हुई है । यहां तक कि सारी राज्यपलटन में और और सब को यह प्रगट हो गया कि मैं मसीह के लिये क़ैद १४ हूँ । और प्रभु में जो भाई हैं उन में से बहुतेरे मेरे क़ैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन बेध- १५ इक सुनाने का और भी हियाव करते हैं । कितने तो डाह और भगड़े से भी और कितने भले मन से मसीह १६ का प्रचार करते हैं । कई एक तो यह जान कर कि मैं सुसमाचार के लिये उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से (१) या । विषयों । (२) या डाकनों ।

मुनाते हैं । और कई एक तो तीभाई से नदी पर विरोध १७ से मसीह की कथा सुनाते हैं यह समझ कर कि क़ैद होने के सिवा मुझे और क़ेश दें सो क्या हुआ । १८ केवल यह कि हर प्रकार से चाहे बहाने से चाहे सब्बाई में मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इस से आनन्दित हूँ और आनन्दित रहूँगा । क्योंकि मैं जानता १९ हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इस का फल मेरा उद्धार होगा । मैं तो यही आशा जी लगा कर रग्वता हूँ कि मैं किसी २० बात में लज्जा न खाऊंगा पर जैसे मदा सब प्रकार से हियाव करता आया हूँ वैसे ही आगे का भी करता रहूँगा और इस रीति से चाहे जीवन चाहे मृत्यु के द्वारा मेरी देह से मसीह की बढ़ाई होगी । क्योंकि मेरे लिये २१ जीना मसीह है और मरना लाम है । पर यदि शरीर में २२ जीता रहना है तो यह मेरे लिये काम का फल है और मैं नहीं जानता कि किस को चुनूं । क्योंकि मैं दोनों के २३ बीच अधर में लटका हूँ जी तो चाहता है कि कूच कर के मसीह के पास जा रहूँ क्योंकि यह और भी बहुत अच्छा है । पर शरीर में रहना तुम्हारे लिये और भी २४ अवश्य है । और इस भरोसे मे मैं जानता हूँ कि मैं २५ जीता रहूँगा और तुम सब के साथ बना रहूँगा कि तुम्हारे विश्वास की बढ़ती और आनन्द हो । इसलिये २६ कि जो घमण्ड तुम मेरे विषय करते हो वह मेरे तुम्हारे पास फिर आने से मसीह यीशु में बढ़ जाए । इतना हो कि तुम्हारा चालचलन मसीह के सुसमाचार २७ के योग्य हो कि मैं चाहे आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊँ तुम्हारे विषय यह मुनूँ कि तुम एक ही आत्मा में बने रहते हो और एक मन होकर सुसमाचार के विश्वास के लिये यत्न करते रहते हो । और किसी बात २८ में विरोधियों से भय नहीं खाते । यह उन के लिए तो विनाश का चिन्ह है पर तुम्हारे लिये उद्धार का और यह परमेश्वर की ओर से है । क्योंकि मसीह के २९ लिये तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उस के लिये दुख भी उठाओ । और ३० तुम्हें वैसी ही कुशती करनी है जैसी तुम ने मुझ में देखी और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ ॥

२. सो यदि मसीह में कुछ शान्ति यदि प्रेम से कुछ दिलासा यदि कुछ आत्मा की सह-  
 २ भागिता यदि कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनन्द पूरा करो कि एक ही मन हो और एक ही प्रेम  
 ३ एक ही चित्त एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई से कुछ न करो पर दीनता से एक दूसरे को  
 ४ अपने से बड़ा समझना। हर एक अपने हित की नहीं  
 ५ बरन दूसरों के हित की भी चिन्ता करे। जैसा मसीह  
 ६ यीशु का वैसा ही तुम्हारा भी मन हो। जिस ने परमेश्वर के स्वरूप में हांकर परमेश्वर के बराबर होना छूट  
 ७ न समझा। बरन अपने आप को ऐसा खाली कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता  
 ८ में हो गया। और मनुष्य के से डौल पर दिखाई देकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी  
 ९ रहा कि मृत्यु बरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उस को बहुत महान भी किया और  
 १० उस को वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कि जो स्वर्ग में और जो पृथिवी पर और जो पृथिवी के नीचे  
 ११ हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिये हर एक जीभ मान ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है ॥  
 १२ सो हे मेरे प्यारे जैसे तुम सदा आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ।  
 १३ क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी सुहृद्भा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव  
 १४ डालता है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना  
 १५ विवाद के किया करो। कि तुम निर्दोष और भोले बनो और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलङ्क  
 १६ सन्तान बने रहो, जिन के बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाईं दिखाई देते हो कि मसीह के दिन घमण्ड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना अकारण  
 १७ गया। और यदि तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ मेरा लोहू भी बहाया जाए तौभी मैं आनन्दित हूँ और तुम सब के साथ आनन्द करता हूँ।  
 १८ वैसे ही तुम भी आनन्दित हो और मेरे साथ आनन्द करो ॥  
 १९ मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीसुथियुस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा कि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे  
 २० शान्ति मिले। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई

नहीं जो मन से तुम्हारी चिन्ता करे। क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं न यीशु मसीह की। पर उस को तो तुम ने परखा और जान भी लिया है कि जैसे पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उस ने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। सो मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी त्यों ही मैं उसे तुरन्त भेजूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैं ने इपफुदीतुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और जरूरी बातों में मेरी सेवा करने वाला है तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। क्योंकि उस का जी तुम सब में लगा था और बहुत घबरा गया था क्योंकि तुम ने सुना था कि वह बीमार हो गया था। और वह बीमार तो हो गया यहां तक कि मरने पर था परन्तु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी कि मुझे शोक पर शोक न हो। तो मैं ने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उस से भेंट कर के फिर आनन्दित हो और मेरा शोक घट जाए। इसलिये तुम प्रभु में उस से बहुत आनन्द के साथ भेंट करना और ऐसी का आदर करना। क्योंकि वह मसीह के काम के लिये अपने प्राण पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था इसलिये कि मेरी सेवा करने में तुम्हारी घटी पूरी करे ॥

३. निदान हे मेरे भाइयो प्रभु में आनन्दित रहो। वे ही बातें तुम को बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता और इस में तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहे उन बुरे काम करनेवालों से चौकस रहो उन काट कूट करनेवालों से चौकस रहो। क्योंकि स्वतन्त्रतावाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा से उपासना करते हैं और मसीह यीशु के विषय घमण्ड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता यदि और किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उस से भी बढ़ कर रख सकता हूँ। आठवें दिन मेरा स्वतन्त्रता हुआ इस्त्राईल के वंश और विन्यामीन के गोत्र का हूँ इब्रानियों का इब्रानी हूँ व्यवस्था के विषय कहो तो फरीसी। उत्साह के विषय कहो तो कलीसिया का सतानेवाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय कहो तो निर्दोष था। पर जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैं ने मसीह के कारण हानि समझ लिया। बरन मैं अपने

प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ और उस के कारण मैं ने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा सा सम-  
 ९ भता हूँ कि मैं मसीह को लाभ में पाऊँ, और उस में पाया जाऊँ न कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने से है और परमेश्वर की ओर से विश्वास  
 १० करने पर मिलती है। और मैं उस को और उस के जी उठने की सामर्थ्य को और उस के साथ दुखों में भागी होने का मर्म जानूँ और उस की मृत्यु की समानता  
 ११ को पाऊँ, कि मैं किसी रीति से मरे हुआँ में से जी  
 १२ उठने के पद तक पहुँचूँ। यह नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिये दौड़ा जाता हूँ जिस के लिये मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा  
 १३ था। हे भाइयो मैं नहीं समझता कि मैं पकड़ चुका हूँ पर यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गईं उन को भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ा हुआँ,  
 १४ निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ कि वह इनाम पाऊँ जिस के लिये परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर  
 १५ बुलाया है। मो हम में से जितने सिद्ध हैं यही मन रखें और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही मन  
 १६ होए तो परमेश्वर वह भी तुम पर प्रगट करेगा। तौभी जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें ॥  
 १७ हे भाइयो तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें देख रखो जो इस रीति पर चलतें हैं जिस  
 १८ का नमूना तुम हम में देखते हो। क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिन की चर्चा मैं ने तुम से बार बार की और अब भी रो रोकर कहता हूँ कि वे मसीह के  
 १९ क्रूस के वैरी हैं। उन का अन्त विनाश है उन का ईश्वर पेट है वे अपनी लजा पर बढ़ाई करते हैं और पृथिवी  
 २० पर की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उद्धारकर्त्ता प्रभु यीशु  
 २१ मसीह के वहाँ से आने की बाट जोहते रहते हैं। वह उस प्रभाव के अनुसार जिस के द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हमारी दीन हीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के समान बना देगा ॥

**४. सो** हे मेरे प्यारे भाइयो जिन में मेरा जी लगा रहता है जो मेरे आनन्द और मुकुट हो हे प्यारो प्रभु में ऐसे ही बने रहो ॥

२ मैं यूओदिया को समझता हूँ और सुन्तुखे को  
 ३ भी कि वे प्रभु में एक मन होएँ। और हे सच्चे जोड़ीदार

मैं तुम से भी बिनती करता हूँ उन स्त्रियों की सहायता कर क्योंकि उन्होंने ने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत जिन के नाम जीवन की पुस्तक में हैं बहुत परिश्रम किया ॥

प्रभु में सदा आनन्दित रहो मैं फिर कहता हूँ ४  
 आनन्दित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर ५  
 प्रगट हो प्रभु निकट है। किसी बात की चिन्ता न ६  
 करो पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रार्थना और बिनती के द्वारा परमेश्वर के सामने ७  
 जनाए जाएँ। और परमेश्वर की शान्ति जो सारी समझ से परे है मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी ॥

निदान हे भाइयो जो जो बातें सत्य हैं जो जो ८  
 बातें आदर के योग्य हैं जो जो बातें न्याय की हैं जो जो ९  
 बातें शुद्ध हैं जो जो बातें सुहावनी हैं जो जो बातें मनभावनी हैं यदि कोई सदगुण और कोई प्रशंसा की बातें हों तो इन ही का विचार किया करो। जो बातें ९  
 तुम ने सीखीं और ग्रहण कीं और सुनीं और मुझ में देखीं वे ही बातें किया करना और शान्ति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा ॥

मैं प्रभु में बहुत आनन्दित हुआँ कि अब इतने १०  
 दिन के पीछे तुम्हारी मेरे विषय चिन्ता फिर पनपी है। तुम ऐसी चिन्ता करते तो ये पर तुम्हें अव- ११  
 सर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ११  
 यह कहता हूँ क्योंकि मैं सीख चुका हूँ कि जिस दशा में हूँ उस में सन्तोष करूँ। मैं दीन होना भी और बढ़ना १२  
 भी जानता हूँ मैं ने हर बात और हर दशा में तृप्त होना और भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। उस में १३  
 जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तौ भी तुम ने भला किया कि मेरे क्रेश में मेरे साथी १४  
 हुए। और हे फिलिपियो तुम यह भी जानते हो कि १५  
 सुसमाचार के फैलाने के आरम्भ में जब मैं मक्दिनुनिया से निकला तो तुम्हें छोड़ और कोई मण्डली देने लेने के विषय मेरे साथ भागी न हुई। जैसे कि जब मैं १६  
 थिस्सलुनीके में था तब भी तुम ने मेरी घटी पूरी करने के लिये एक बार क्या वरन दो बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ पर मैं वह फल चाहता १७  
 हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिये बढ़ता जाए। मेरे पास सब १८  
 कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएँ तुम ने इपफरदीतुस के हाथ भेजीं उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया वह तो सुगन्ध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है



- १९ जो परमेश्वर का भाता है । और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है  
 २० तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा । हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे । आमीन ॥  
 २१ मसीह यीशु में हर एक पवित्र जन को नमस्कार ।

जो भाई मेरे साथ हैं उन का तुम को नमस्कार । सब २२ पवित्र लोगों का निज करके उन का जो कैसर के घराने के हैं तुम को नमस्कार ॥  
 हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे आत्मा २३ के साथ हो ॥

## कुलिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री ।

१. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का

२ प्रेरित है और भाई तीमुथियुम की ओर से, मसीह में उन पवित्र लोगों और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्ते में है ॥

हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

३ हम सदा तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं । क्योंकि हम ने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो,

४ उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में रखी हुई है जिस की कथा तुम सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुँचा और जैसा सारे जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है और जिस दिन से तुम ने उस को सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना तुम में भी ऐसा ही करता है ।

५ उसी की शिक्षा तुम ने हमारे प्यारे संगी दास ह्यफ्राम से पाई जो हमारे लिये मसीह का विश्वासयोग्य सेवक है ।

६ उसी ने तुम्हारा प्रेम जो आत्मा में है हमें बताया ॥

७ इसी लिये जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिये प्रार्थना करना और यह माँगना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में भरपूर हो जाओ ।

८ जिस से कि तुम्हारा चालचलन प्रभु के योग्य हो कि वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के अच्छे काम का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में

९ बढ़ते जाओ । और उस की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवन्त होते जाओ यहां लों कि

आनन्द के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सके । और पिता का धन्यवाद करते रहो जिस १२ ने हमें इस योग्य किया कि पवित्र लोगों की मरस का जो ज्योति में है अंश पाएँ । वही हमें अधिकार के वश १३ से छुड़ाकर अपने उस प्रिय पुत्र के राज्य में लाया । जिस में हमें छुटकारा अर्थात् पापों की क्षमा मिलती १४ है । वह तो अनदेखे परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी १५ सृष्टि का पहिलौठा है । क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं १६ सिरजी गईं स्वर्ग की और पृथ्वी की देखी और अनदेखी क्या सिहामन क्या प्रभुताएं क्या प्रधानताएं क्या अधिकार सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिये सिरजी गई हैं । और वही सब वस्तुओं से पहिले १७ है और सब वस्तुएं उसी में बनी रहती हैं । और वही १८ देह का अर्थात् कलीसिया का सिर है कि वह आदि है और मरे हुएों में से जी उठनेवालों में पहिलौठा कि सब बातों में वही प्रधान हो । क्योंकि पिता को यह इच्छा १९ लगा कि उस में सारी भरपूरी वास करे । और उस के २० क्रम पर बहाए हुए लोहू के द्वारा मेल करके सब वस्तुओं का चाहे व पृथ्वी पर कां हो चाहे स्वर्ग में की अपने साथ उसी के द्वारा मिलाप कराए । और उस ने २१ अब उस की शाहीरक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हें जो पहिले अलग किए हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे मिला लिया । कि तुम्हें अपने सामने २२ पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष हाज़िर करे । यदि २३ तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुम ने सुना न छोड़ो जिस का प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिस का मैं पौलुस सेवक बना ॥

अब मैं उन दुखों में होकर आनन्द करता हूँ जो २४

तुम्हारे लिये उठाता हूँ और मसीह के क्रेशों की घटी उस की देह के लिये अर्थात् कलीसिया के लिये अपने शरीर में पूरी करता हूँ । उस का मैं परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिये मुझे सौंप दिया गया कि परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करूँ । अर्थात् उस भेद को जो समय समय और पीढ़ी पीढ़ी के लागू से गुप्त तो रहा पर अब उस के पांवत्र लोगों पर प्रगट हुआ है । जिन्हें परमेश्वर ने बताना चाहा कि अन्यजातियाँ म इस भेद का माहमा का धन क्या है और वह यह है कि मसीह जो माहमा का आशा है तुम में रहता है । जिस का प्रचार करके हम हर एक मनुष्य का चिन्ताते हैं और सार ज्ञान से हर एक मनुष्य का सखाते हैं इसलिये कि हर एक मनुष्य का मसीह में सिद्ध करके हाज़िर कर । और इसी के लिये मैं उस की उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामथ्य सहित गुणकारी हाती है यत्न करके पारश्रम भा करता हूँ । मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उन के जो लादाक्या में हैं और उन सब के लिये जिन्हां न शरार म मरा मुह नहीं दखा क्या हा यत्न करता हूँ । कि उन के मना म शान्त हो और व प्रम से आपस म गठ रहे कि वे पूरा समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पता के भेद का अर्थात् मसीह के पहचाने । जिस म बुद्ध और ज्ञान के सार भंडार छिप है । यह मैं इसलिये कहता हूँ कि काइ तुम्हें सुभानवाली बाता से धाखा न दे । क्योंकि मैं जो शरार के भाव से तुम से दूर हूँ ता भा आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा विधि-अनुसार चाल और तुम्हारे विश्वास का जो मसीह पर है स्थिरता देखकर आनन्दित हाता हूँ ॥

सा जैसे तुम न मसीह यीशु के प्रभु करके मान लिया है वैस हा उसी म चला । और उसी में तुम जड़ पकड़त और बनत जाओ और जैसे तुम सखाए गए विश्वास म पकड़ हात जाओ और धन्यवाद पर धन्यवाद करत रहो ॥

चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्त्व-ज्ञान और व्यर्थ धाख के द्वारा अहर न कर ले जा मनुष्या के परम्पराइ मत और संसार की आदि शिन्ना के अनुसार है पर मसीह के अनुसार नहीं । क्योंकि उस में ईश्वरत्व की सारी भरपूरी सदेह वास करती है । और उस में तुम भरपूर हुए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का सिर है । उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो

(१) बा । धन । (२) या । लूट न ले ।

हाथ से नहीं होता पर मसीह का खतना जिस से शारीरिक देह उतार दी जाती है । और बपतिसमा लेने में उसी के साथ गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के कार्य पर विश्वास करके जिस ने उस के मरे हुआ में से जिलाया उस के साथ जी भी उठे । और उस न तुम्हें भी जो अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मरे हुए थे उस के साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों का क्षमा किया । और विधियों का लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उस के क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है । और प्रधानताओं और अधिकारों को हटा कर उन्हें खुल्लम खुल्ला तमाशा बना लिया और क्रूस के कारण उन पर जयजयकार किया ॥

इसलिये खाने पीने या पर्व या नए चांद या विश्रामवारों के विषय तुम्हारा कोई फ़ैसला न करे । कि ये सब आनेवाली बातों की छाया हैं पर मूल मसीह का है । कोई जो अपनी इच्छा का दीनता और स्वर्गदूतो की पूजा करनेवाला हो तुम्हें प्रातफल से रहित न करे । ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है । और सिर को धारण नहीं करता जिस से सारी देह जाड़ा और पट्टी के द्वारा पाली जाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की बढ़ती से बढ़ती जाती है ॥

जब कि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिन्ना की और मर गए हो तो क्यों मानो संसार में जीते हुए ऐसी विधियों के वश में रहते हो, कि यह न छूना न नखना और न हाथ लगाना । ये सारी वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी यह तो मनुष्यों की आशाओं और शिन्नाओं के अनुसार है । ऐसी विधियों निज इच्छा के अनुमार गड़ी हुई भक्ति और दीनता और देह के कष्ट देने के भाव से ज्ञान का नाम तो पाती हैं पर शारीरिक लालसाओं के रोकने में इन से कुछ भी लाभ नहीं होता ॥

३. इसलिये जब तुम मसीह के साथ जिलाए गये तो ऊपर की वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह परमेश्वर के दहिने बैठा है । पृथिवी पर की नहीं पर ऊपर की वस्तुओं पर मन लगाओ । क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है । जब मसीह हमारा जीवन प्रगट होगा तो तुम भी उस के साथ महिमा सहित प्रगट किये जाओगे ॥

(३) या । लूटकर । (४) यू० । देह ।

- ५ इसलिये अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथिवी पर हैं अर्थात् व्यभिचार अशुद्धता कुकामना बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्च्छा पूजा के बराबर है<sup>१</sup> ।
- ६ इन ही के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने-  
७ वालों पर पड़ता है । और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे ।  
८ पर अब तुम भी क्रोध कोप वैरभाव निन्दा और मंह से  
९ गालियां निकालना ये सब बातें छोड़ दो । एक दूसरे से झूठ न बोलो क्योंकि तुम ने पुराने मनुष्यत्व को उस के  
१० कामों समेत उतार डाला है । और नए को पहिन लिया जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने  
११ के लिये नया बनता जाता है । उस में न यूनानी न यहूदी न खतना किया हुआ न खतना रहित न जङ्गली न स्कूटी न दास और न स्वतंत्र है पर मसीह सब कुछ और सब में है ॥
- १२ सो परमेश्वर के चुने हुएों की नाई जो पवित्र और प्यारे हैं बड़ी कष्टना और भलाई और दीनता और  
१३ नम्रता और सहनशीलता धारण करो । और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करना जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो ।  
१४ और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का बंध है  
१५ धारण करो । और मसीह की शान्ति जिस के लिये तुम एक देह हो कर बुलाए भी गए तुम्हारे हृदय  
१६ में राज्य करे और तुम धन्यवाद करो । मसीह का वचन अपने में बहुतायत से बसने दो और सारे ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिन्ताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिये भजन  
१७ और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ । और वचन से या काम से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उस के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो ॥
- १८ हे पत्नियो जैसा प्रभु में सोहता है वैसा ही  
१९ अपने अपने पति के अधीन रहे । हे पतियो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उन से कड़वे न हो ।  
२० हे बालको सब बातों में अपने अपने माता पिता की  
२१ आज्ञा माना करो क्योंकि यह प्रभु का भाता है । हे बच्चेवालो अपने बालकों को न खिजाओ न हो कि ये  
२२ उदास हो जाएं । हे दासो जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं मनुष्यों को प्रसन्न करनेवालों की नाई दिखाने

(१) या । मूलपूजा है ।

के लिये नहीं पर मन की सीधई और परमेश्वर के मय से सब बातों में उन की आज्ञा मानो । और जो कुछ तुम २३ करो जी से करो यह समझ कर कि मनुष्यों के लिये नहीं परन्तु प्रभु के लिये करते हो । क्योंकि जानते हो कि २४ तुम्हें इस के बदले प्रभु से मीरास मिलेगी । तुम प्रभु मसीह के दास हो । और जो बुरा करता है वह अपनी २५ बुराई का फल पाएगा वहां किसी का पक्षपात नहीं ।।

४ हे स्वामियो अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो यह समझ कर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है ॥

प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उस में २ जागते रहो । और इस के साथ हमारे लिये भी प्रार्थना ३ करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिये वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद के विषय बोल सकें जिस के कारण मैं क्रैद हुआ हूं । और ४ जैसा मुझे बोलना चाहिए वैसा ही उसे प्रगट करू । अवसर को बहुमोल समझ कर बाहरवालों के साथ ५ बुद्धि से बरताव करो । तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह ६ सहित और सलोना हो कि तुम जानों कि हर एक को किस रीति से उत्तर देना चाहिए ॥

प्यारा भाई और विश्वासयोग्य सेवक तुखिकुस ७ जो प्रभु में मेरा संगी दास है मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा । उसे मैं ने इसलिये तुम्हारे पास भेजा है कि ८ तुम्हें हमारी दशा मालूम हो और वह तुम्हारे मन को शान्ति दे । और उस के साथ उनसिमुस को ९ भी भेजा है जो विश्वास योग्य और प्यारा भाई और तुम ही में से है ये तुम्हें यहां की सारी बातें बता देंगे ॥

अरिस्तार्खुस जो मेरे साथ क्रैद है और मरकुस १० जो बरनबा का भाई लगता है जिस के विषय तुम ने आज्ञा पाई यदि वह तुम्हारे पास आए तो उस से अच्छी तरह मिलना । और यीशु जो यूस्तुस कहलाता ११ है इन तीनों का तुम्हें नमस्कार । खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिये मेरे साथ काम करते हैं और उन से मुझे शान्ति मिली । इफ्रनास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है १२ तुम से नमस्कार कहता और सदा तुम्हारे लिये प्रार्थनाओं में यत्न करता है कि तुम सिद्ध होकर परमेश्वर की सारी इच्छा पर निश्चय के साथ स्थिर रहो । मैं १३ उस का गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिये और लौदीकिया और हियरापुलिसवालों के लिये बड़ा यत्न करता रहता है । प्यारा वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार । १४

१५ लौदीकिया के भाइयों को और नुमफास और उन के  
१६ घर में की मण्डली को नमस्कार । और जब यह पत्री  
तुम्हारे यहां पढ़ ली जाए तो ऐसा करना कि लौदी-  
किया की मण्डली में भी पढ़ी जाए और वह पत्री जो  
१७ लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना । फिर अखिप्पुस

से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुम्हें सौंपी गई है उसे  
चौकसी के साथ पूरी करना ॥

मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नम- १८  
स्कार । मेरे बन्धनों को स्मरण रखना । अनुग्रह तुम पर  
होता रहे ॥

## थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री ।

१. पौलुस और मिलवानुस और तीमुथियुस की  
ओर से थिस्सलुनीकियों की मण्डली  
के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है ॥  
अनुग्रह और शान्ति तुम्हें मिलती रहे ॥

२ हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और  
सदा तुम सब के विषय परमेश्वर का धन्यवाद करते  
३ हैं । और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे  
विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु  
४ यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण  
करते हैं । और हे भाइयो परमेश्वर के प्यारे हम जानते  
५ हैं कि तुम चुने हुए हो । क्योंकि हमारा सुसमाचार  
तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही बरन सामर्थ्य और  
पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय से पहुंचा है जैसा तुम  
जानते हो कि हम तुम्हारे लिये तुम में कैसे बन गए थे ।  
६ और तुम बड़े झंझ में पवित्र आत्मा के आनन्द के साथ  
वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने  
७ लगे । यहां तक कि मकिदुनिया और अखया में के सब  
८ विश्वासियों के लिये तुम नमूना बने । क्योंकि तुम्हारे यहां  
से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन  
सुनाया गया पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है  
हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की  
९ आवश्यकता नहीं । क्योंकि वे आप ही हमारे विषय  
बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और  
तुम क्योंकि मूरतों से परमेश्वर की ओर फिर कि जीविते  
१० और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो । और उस के पुत्र के  
स्वर्ग पर से आने की बात देखो जिसे उस ने मरे हुआओं में  
से जिलाया अर्थात् यीशु की जो हमें आनेवाले क्रोध से  
बचाता है ॥

२. हे भाइयो तुम आप जानते हो कि हमारा  
तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ । पर २  
तुम आप ही जानते हो कि पहिले पहिल फिलिपी में दुख  
उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें  
ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी  
विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएँ । क्योंकि हमारा उप- ३  
देश न भ्रम में और न अशुद्धता से और न झूल के साथ  
है । पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहगाकर सुसमाचार ४  
सौंपा हम वैसा ही बोलते हैं और इस में मनुष्यों को नहीं  
परन्तु परमेश्वर को जो हमारे मनो को जांचता है प्रसन्न  
करते हैं । क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी ५  
लालोपत्तो की बातें किया करते थे और न लोभ के लिये  
बहाना करते थे परमेश्वर गवाह है । और यद्यपि हम ६  
मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते  
थे तौभी हम मनुष्यों से आदर न चाहते थे न तुम से न  
और किसी से, पर जिस तरह माता अपने बालकों को ७  
पालती पोसती है वैसे ही हम ने भी तुम्हारे बीच रह  
कर कामलता दिखाई । वैसे ही हम तुम पर मया करते ८  
हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना  
प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे इसलिये कि तुम हमारे  
प्यारे हो गए थे । क्योंकि हे भाइयो तुम हमारे परिश्रम ९  
और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हम ने इसलिये रात  
दिन काम धन्धा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमा-  
चार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो ।  
तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे १०  
बीच जो विश्वास रखते हो हम कैसी पवित्रता और धर्म  
और निर्दोषता से रहे । जैसे तुम जानते हो कि जैसा ११  
पिता अपने बालकों के साथ बरताव करता है वैसे ही हम

तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शान्ति देते  
१२ और समझाते थे । कि तुम्हारा चालचलन परमेश्वर  
के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में  
बुलाता है ॥

१३ इसलिये हम भी परमेश्वर का धन्यवाद लगातार  
करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का  
वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम ने उसे मनुष्यों का नहीं  
परन्तु परमेश्वर का वचन समझकर (और सचमुच वह  
ऐसा ही है) ग्रहण किया और वह तुम में जो विश्वास

१४ रखते हो गुणकारी है । इसलिये कि तुम हे भाइयो पर-  
मेश्वर की उन मण्डलियों की सी चाल चलने लगे जो  
यहूदिया में मसीह यीशु में हैं क्योंकि तुम ने भी अपने  
लांगो से वैसा ही दुःख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से

१५ पाया था । जिन्होंने प्रभु यीशु को और नबियों को भी  
मार डाला और हम को सताया और परमेश्वर उन से  
१६ प्रसन्न नहीं और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं । आर  
वे अन्यजातियों से उन के उद्धार के लिये बातें करने से  
हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुञ्जा भरते रहें ।  
पर उन पर क्रोध अन्त लो पहुंचा है ॥

१७ हे भाइयो जब हम थोड़ी देर के लिये मन में नहीं  
पर प्रगट में तुम से अलग हो गए थे तो हम न बड़ी  
लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिये और भी यत्न  
१८ किया । इसलिये हम ने (अर्थात् मुझ पौलुस ने) एक बार  
नहीं बरन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा आर शैतान  
१९ हमें रोक रहा । क्योंकि हमारी आशा या आनन्द या  
बढ़ाई का मुकुट क्या है । क्या हमारे प्रभु यीशु के सामने  
२० उस के आने के समय तुम ही न होंगे । हमारी बढ़ाई  
और आनन्द तुम ही हो ॥

**३. इसलिये** जब हम से और रहा न गया तो हम  
ने यह ठहराया कि अधने में अकले

२ रह जाएं । और हम ने तीमुथियुस को जो मसीह के  
सुसमाचार में हमारा भाई आर परमेश्वर का सेवक है  
इसलिये भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे  
३ विश्वास के विषय तुम्हें समझाए । कि कोई इन  
क्लेशों के कारण डगमगा न जाए क्योंकि तुम आप  
४ जानते हो कि हम इन ही के लिये ठहराए गए हैं । क्योंकि  
पहिले भी जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुम से कहा  
करते थे कि हमें क्रेश उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है  
५ और तुम जानते भी हो । इस कारण जब मुझ से और  
रहा न गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने को

भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि किसी रीति से परीक्षा करने-  
वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिभ्रम  
अकारण गया हो । पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे ६  
पास से हमारे यहां आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का  
सुसमाचार और इस बात को सुनाया कि तुम सदा  
प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की  
लालसा रखते हो जैसे हम भी तुम्हें देखने की । इस- ७  
लिये हे भाइयो हम ने अपने सारे संकट और क्रेश में  
तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय शान्ति पाई । क्योंकि ८  
अब यदि तुम प्रभु में बने रहो तो हम जाते हैं । और ९  
जैसा आनन्द हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के  
सामने है उस के बदले तुम्हारे विषय हम किस रीति  
परमेश्वर का धन्यवाद करें । हम रात दिन बहुत ही १०  
प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे  
विश्वास की घटी पूरी करें ॥

अब हमारा परमेश्वर और पिता आपही और ११  
हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहां आने का हमारा मार्ग सीधा  
करे । और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुम से प्रेम रखते १२  
हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के  
साथ बढ़े और उन्नति करता जाए । कि वह तुम्हारे मनो १३  
को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब  
पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और  
पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें ॥

**४. निदान** हे भाइयो हम तुम से विनती  
करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु

में समझाते हैं कि जैसे तुम ने हम से योग्य चाल चलना  
और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा और जैसा तुम  
चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ । क्योंकि तुम २  
जानते हो कि हम ने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन  
कौन आज्ञा पहुंचाई । क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है ३  
कि तुम पवित्र बनो कि व्यभिचार से बचे रहो । और तुम ४  
में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र  
को प्राप्त करना जाने । और यह कामाभिलाषा से नहीं ५  
उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानतीं । कि ६  
इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर  
दांव चलाए क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने-  
वाला है जैसा कि हम ने पहिले तुम से कहा और  
चिताया भी था । क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने ७  
के लिये नहीं परन्तु पवित्र होने के लिये बुलाया । इस ८  
कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परन्तु  
परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा  
तुम्हें देता है ॥

- ९ भाईचारे की प्रीति के विषय यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं क्योंकि आपस में प्रेम  
 १० रखना तुम ने आप ही परमेश्वर से सीखा है । और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो पर हे भाइयो हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते  
 ११ जाओ । और जैसी हम ने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुप चाप रहने और अपना अपना काम काज करने और  
 १२ अपने अपने हाथों से कमाने का यत्न करो । कि बाहर-वालों के साथ सभ्यता से बरताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो ॥
- १३ हे भाइयो हम नहीं चाहते कि तुम उन के विषय जो सोते हैं अज्ञान रहो ऐसा न हो कि तुम औरों  
 १४ की नाईं शोक करो जिन्हें आज्ञा नहीं । क्योंकि यदि हमें प्रतीति है कि यीशु मरा और जी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उस के साथ  
 १५ लाएगा । क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम से यह कहने हैं कि हम जो जीते हैं और प्रभु के आने तक  
 १६ बचे रहेंगे सोए हुआ से कभी आगे न बढ़ेंगे । क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहिले जी  
 १७ उठेंगे । तब हम जो जीते और बचे रहेंगे उन के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें  
 १८ और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे । सो इन बातों से एक दूसरे को शान्ति दिया करो ॥

५. पर हे भाइयो इस का प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय

- १ तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए । क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु  
 २ का दिन आनेवाला है । जब लोग कहते होंगे कि कुराल है और कुछ भय नहीं तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा जैसा गर्भवती पर पीड़ और वे किसी रीति से न  
 ४ बचेंगे । पर हे भाइयो तुम तो अन्धकार में नहीं हो कि ५ वह दिन तुम पर चोर की नाईं आ पड़े । क्योंकि तुम सब ज्योति के सन्तान और दिन के सन्तान हो हम न  
 ६ रात के न अन्धकार के हैं । हमलिये हम औरों की नाईं  
 ७ सो न रहें पर जागते और सचेत रहें । क्योंकि जो सोते

हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं । पर हम जो दिन के हैं ८ विश्वास और प्रेम की भिलम और उदार की आज्ञा का टोप पहिनकर सचेत रहें । क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध ९ के लिये नहीं पर इसलिये ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उदार प्राप्त करें । वह हमारे लिये १० इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते सब मिलकर उम के साथ जीएं । इस कारण एक दूसरे को ११ शान्ति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनें जैसे तुम करते भी हो ॥

हे भाइयो हम तुम से विनती करते हैं कि जो तुम १२ में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे ऊपर हैं और तुम्हें चिंताते हैं उन्हें मानो । और उन के काम के कारण १३ प्रेम के साथ उन को बहुत ही आदर के योग्य समझो । आराम में मेल से रहो । और हे भाइयो हम तुम्हें सम- १४ भाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उन को चिंताओं कायरों को दिलासा दो निबलों को संभाला सब की और सहनशीलता दिखाओ । देखो कोई किसी से बुराई १५ के बदले बुराई न करे पर सदा आपस में और सब से भी भलाई की चेष्टा करो । सदा आनिन्दित रहो । सदा १६, १७ प्रार्थना में लगे रहो । हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि १८ तुम्हारे लिये मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है । आत्मा को न बुझाओ । नववर्तों को तुच्छ न १९, २० जानो । सब बातों को जाचो जो अच्छी हैं उसे धरे रहो २१ सब प्रकार की बुराई से बचे रहो ॥ २२

शान्ति का परमेश्वर आपही तुम्हें पूरी रीति से २३ पवित्र करे और तुम्हारा आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने लो पूरे पूरे और निर्दोष बने रहें । तुम्हारा बुनानेवाला सच्चा है और वह ऐसा २४ ही करेगा ॥

हे भाइयो हमारे लिये प्रार्थना करो ॥ २५ सब भाइयों को पवित्र चुम्बन में नमस्कार करो । २६ मैं तुम्हें प्रभु की किरिया देता हूँ कि यह पत्रा सब भाइयों २७ को पढ़कर सुनाई जाए ॥

हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर २८ होता रहे ॥

# थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस परित की दूसरी पत्री ।

## १. पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनी-

कियों की मण्डली के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है ॥

- २ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥
- ३ हे भाइयो तुम्हारे विषय हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है इसलिये कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है ।
- ४ यहां लों कि हम आप परमेश्वर की मण्डलियों में तुम्हारे विषय घमण्ड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश जो तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रगट होता है । यह परमेश्वर के ठीक न्याय का प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो जिस के लिये तुम दुख भी उठाते हो । क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय के अनुसार है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे । और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती आग में स्वर्ग से प्रगट होगा ।
- ८ और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुममाचार को नहीं मानते उन से पलटा ९ लेगा । वे प्रभु के सामने से और उस की शक्ति के तंज १० से दूर होकर अनन्त विनाश का दण्ड पाएंगे । यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करनेवालों में अचंभे का कारण होने का आएगा क्योंकि तुम ने हमारी गवाही की प्रतीति ११ की । इसी लिये हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के १२ हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे । कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु के नाम की महिमा तुम में हो और तुम्हारी उस में ॥

## २. हे भाइयो हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उस के पास अपने इकट्टे

होने के विषय तुम से बिनती करते हैं । कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुँचा है तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ । कोई तुम्हें किसी रीति से न छूले क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म त्याग न हो ले और वह पाप पुरुष अर्थात् विनाश का पुत्र प्रगट न हो । जो विरोध करता और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बढ़ा ठहराता है यहां तक कि वह परमेश्वर के मन्दिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर करके दिखाता है । क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुम से ये बातें कहा करता था । और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रगट हो । क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है पर अभी एक रोकनेवाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा । तब वह अधर्म प्रगट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मंड की फूंक से मार डालेगा और अपने आने के प्रकाश से विनाश करेगा । जिस अधर्म का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की भूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होनेवालों के लिये अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा इस कारण कि उन्होंने ने सत्य का प्रेम नहीं अपनाया कि उन का उद्धार होता । और इसी कारण परमेश्वर उन में एक भटकानेवाली सामर्थ भेजेगा कि वे भूठ की प्रतीति करें । और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते बरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दोषी ठहरें ॥

पर हे भाइयो और प्रभु के प्यारो चाहिए कि हम तुम्हारे विषय सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार

- १४ पाओ । जिस के लिये उस ने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा  
१५ को प्राप्त करो । इसलिये हे भाइयो स्थिर रहो और जो जो बातें तुम ने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हम से सीखी उन्हें धामे रहे ॥
- १६ हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिस ने हम से प्रेम रक्खा और अनुग्रह  
१७ से अनन्त शान्ति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनो में शान्ति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में स्थिर करे ॥

### ३. निदान हे भाइयो हमारे लिये प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन

- ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम्हारे यहाँ  
२ होता है । और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं ॥
- ३ परन्तु प्रभु सच्चा<sup>१</sup> है जो तुम्हें स्थिर करेगा और दुष्ट<sup>२</sup>  
४ से बचाए रहेगा । और हमें प्रभु में तुम्हारे विषय भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो  
५ और मानते भी रहेगो । परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे ॥
- ६ हे भाइयो हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहे जो अनरीति से चलता और जो शिक्षा उस ने हम

(१) यू० । विश्वासयोग्य । (२) या । बुराई ।

से पाई उस के अनुसार नहीं करता । क्योंकि तुम आप ७ जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे बीच अनरीति से न चले । और किसी की रोटी सेंट न खाई पर परिश्रम और कष्ट ८ से रात दिन काम धन्धा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो । इसलिये नहीं कि हमें अधिकार नहीं पर ९ इसलिये कि अपने आप को तुम्हारे लिये नमूना ठहराएँ कि तुम हमारी सी चाल चलो । और जब हम तुम्हारे यहाँ १० थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देने थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए । हम सुनते हैं कि कितने ११ लोग तुम्हारे बीच अनरीति से चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं । ऐमों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और सम- १२ भाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें । और तुम हे भाइयो भलाई करने में हियाव न १३ छोड़ो । यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने १४ तो उस पर आज्ञा रक्यो और उस की संगति न करो जिस से वह लज्जित हो । तौभी उसे वैरी सा मत समझो १५ पर भाई जान कर चिताओ ॥

शान्ति का प्रभु आप ही नित्य तुम्हें सदा और हर १६ प्रकार से शान्ति दे । प्रभु तुम सब के साथ रहे ॥  
मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ हर १७ पत्री में मेरा यही चिन्ह है मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ ।  
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता १८ रहे ॥

## तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री ।

१. पौलुस की ओर से जो हमारे उदार-कर्त्ता परमेश्वर और हमारी आज्ञा मसीह यीशु की आज्ञा अनुसार मसीह यीशु का प्रेरित है तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है ॥
- २ पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु से तुम्हें अनुग्रह और दया और शान्ति मिले ॥
- ३ जैसे मैं ने मक्दिुनिया को जाते समय तुम्हें सम-झाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा देते  
४ रहना कि और प्रकार का उपदेश न दें, और ऐसी कहा-

नियों और अनन्त वंशावलियों पर मन न लगाएँ जिन से विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार नहीं जो विश्वास से सम्बन्ध रखता है वैसे ही फिर भी कहता हूँ । आज्ञा का सार यह है कि शुद्ध मन और ५ अच्छे विवेक<sup>१</sup> और कपटरहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो । इन को तज कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ६ ओर भटक गए हैं । और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं ७ पर जो बातें कहते और जिन को दृढ़ता से बोलते हैं उन को समझते भी नहीं । पर हम जानते हैं कि यदि कोई ८

(१) मन । या कांशंस ।



व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम, में लाए तो वह  
 ९ भली है। यह जान कर कि व्यवस्था धर्मों जन के लिये  
 नहीं पर अधर्मियों निरंकुशों भक्तिहीनों पापियों अपवित्रों  
 १० और अशुद्धों मा बाप के घात करनेवालों खूनियों, व्यभि-  
 चारियों पुरुषगामियों मनुष्य के बेचनेवालों भूठों और  
 झूठी किरिया खानेवालों और इन को छोड़ खरे उपदेश  
 ११ के सब विरोधियों के लिये ठहराई गई है। यही परमधन्य  
 परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है  
 जो मुझे सौंपा गया ॥

१२ और मैं मसीह यीशु हमारे प्रभु का जिस ने मुझे  
 सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उस ने मुझे विश्वास  
 १३ योग्य समझकर अपनी सेवा के लिये ठहराया। मैं तो  
 पहिले निन्दा करनेवाला और सतानेवाला और अंधेर करने-  
 वाला था तौभी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैं ने अविश्वास  
 १४ की दशा में बिन समझे बड़े ये काम किए थे। और  
 हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ  
 १५ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच<sup>१</sup>  
 और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु  
 पापियों का उद्धार करने के लिये जगत में आया जिन  
 १६ में सब से बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिये दया हुई  
 कि मुझ सब से बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी  
 सहनशीलता दिखाये कि जो लोग उस पर अनन्त  
 जीवन के लिये विश्वास करेंगे उन के लिये मैं एक  
 १७ नमूना बनूँ। अब सनातन राजा अविनाशी अनदेखे  
 अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती  
 रहे। आमीन ॥

१८ हे पुत्र तीमुथियुस उन नबूवतों के अनुसार जो  
 पहिले तरे विषय की गई थीं मैं यह आज्ञा सौंपता  
 हूँ कि तू उन के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे।  
 १९ और विश्वास और उस अच्छे विवेक<sup>२</sup> को धामे रहे जिसे  
 दूर करने के कारण कितनों का विश्वासरूपी जहाज़ डूब  
 २० गया। उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकन्दर हैं जिन्हें मैं  
 ने शैतान को सौंप दिया कि वे निन्दा न करना  
 सीखें ॥

२. सो मैं सच से पहिले यह उपदेश देता  
 हूँ कि बिन्ती और प्रार्थना और

निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिये किए जाएं।  
 २ राजाओं और सब ऊंचे पदवालों के निमित्त इसलिये  
 कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और  
 ३ गम्भीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता

परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है। वह यह  
 चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य  
 को भली भांति पहचानें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है  
 और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच भी एक ही बिचवाई  
 है अर्थात् मसीह यीशु जो मनुष्य है। जिस ने अपने  
 आप को सब के छुटकारे के दाम में दिया कि उस की  
 गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मैं सच कहता हूँ भूठ  
 नहीं बोलता कि मैं इसी लिये प्रचारक और प्रेरित और  
 अन्यजातियों के लिये विश्वास और सत्य का उपदेशक  
 ठहराया गया ॥

सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध  
 और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया  
 करें। जैसे ही स्त्रियां संकोच और संयम के साथ सोहते  
 हुए पहिरावन से अपने आप को संवारे न कि बाल  
 गूथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से,  
 पर भले कामों से कि परमेश्वर की भक्ति का प्रण करने-  
 वाली स्त्रियों को यही सोहता है। स्त्री को चुपचाप पूरी  
 अधीनता से सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि स्त्री  
 न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए परन्तु  
 चुपचाप रहे। क्योंकि आदम पहिले उस के पीछे हवा  
 बनाई गई। और आदम बहकाया गया नहीं पर स्त्री  
 बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तौभी बच्चे जनने के  
 द्वारा उद्धार पाएगी यदि वे संयम सहित विश्वास प्रेम  
 और पवित्रता में बने रहें ॥

३ यह बात सत्य<sup>३</sup> है कि कोई अध्वक्ष<sup>४</sup> होना

चाहता है तो भले काम की इच्छा  
 करता है। सो चाहिए कि अध्वक्ष निर्दोष और एक ही  
 पत्नी का पति सचेत संयमी सुशील पहनाई करनेवाला  
 और सिखाने में निपुण हो। पियकड़ या मारपीट करने-  
 वाला न हो बरन कोमल हो न भगड़ालू न लोभी,  
 अपने घर का अच्छा प्रबन्ध करता हो और लड़के वालों  
 को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। पर जब कोई  
 अपने घर ही का प्रबन्ध करना न जानता हो तो परमे-  
 श्वर की मण्डली की रखवाली क्योंकर करेगा। फिर नया  
 चेला न हो ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान<sup>५</sup> से  
 दण्ड पाए। और बाहरवालों में भी उस का सुनाम  
 हो न हो कि निन्दित होकर शैतान<sup>५</sup> के फंदे में पड़े।  
 जैसे ही सेवकों<sup>६</sup> को भी गंभीर होना चाहिए दैरगी  
 पियकड़ और नीच कमाई के लोभी न हों। पर विश्वास  
 ९

(१) य०। विश्वासयोग्य। (२) वा। मन या। कांशंस।

(३) य०। विश्वासयोग्य। (४) वा। विश्व। (५) य०। इबलीस।  
 (६) वा। डीकनों।

- १० के भेद को शुद्ध विवेक<sup>१</sup> से रक्खें । और ये भी पहिले  
परखे जाएं तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक<sup>२</sup> का काम  
११ करें । इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए  
दोष लगानेवाली न हो पर सचेत और सब बातों में  
१२ विश्वासी हों । सेवक<sup>३</sup> एक एक पत्नी के पति और लड़के  
बालों और अपने घरों का अच्छा प्रबन्ध करते हों ।  
१३ क्योंकि जो सेवक<sup>४</sup> का काम अच्छी तरह से करते हैं वे  
अपने लिये अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह  
यीशु पर है बढ़ा दियाव पाते हैं ॥
- १४ मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी  
१५ ये बातें तुझे इसलिये लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में  
देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते  
परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और  
१६ नेव है उस में कैसा बरताव करना चाहिए । और यह  
बात सब मानते हैं कि भक्ति का भेद भारी है अर्थात्  
वह जो शरीर में प्रगट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा  
स्वर्गदूतों को दिखाई दिया अन्यजातियों में उस का  
प्रचार हुआ जगत में उस पर विश्वास किया गया और  
महिमा में ऊपर उठाया गया ॥

### ४. पवित्र आत्मा साफ साफ कहता है

- कि आनेवाले समयों में कितने  
लोग भरमानेवाले आत्माओं और दुष्टात्माओं की  
शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे ।  
२ यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिन का  
३ विवेक<sup>१</sup> मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है । जो  
ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से  
परे रहने की आज्ञा देंगे जिन्हें परमेश्वर ने इसलिये  
सिरजा की विश्वासी और सत्य के पहचाननेवाले उन्हें  
४ धन्यवाद के साथ खाएँ । क्योंकि परमेश्वर की सिरजी  
हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु दूर करने के  
योग्य नहीं पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए ।  
५ इसलिये कि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा  
शुद्ध हो जाती है ॥
- ६ यदि तू भाइयों को इन बातों की सुध दिलाता  
रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और  
विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू  
७ मानता आया है तेरा पोषण होता रहेगा । पर अशुद्ध  
और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति  
८ के लिये अपना साधन कर । क्योंकि देह की साधना से  
थोड़ा ही लाभ तो होता है पर भक्ति सब बातों के लिये

(१) मन । वा कारांस । (२) या डीकन ।

लाभदायक है कि अब के और आनेवाले जीवन की भी  
प्रतिज्ञा इसी के लिये है । और यह बात सच<sup>२</sup> और हर  
प्रकार से मानने योग्य है । क्योंकि हम परिश्रम और  
यत्न इसी लिये करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते  
परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज कर के  
विश्वासियों का उद्धारकर्त्ता है । इन बातों की आज्ञा कर  
और सिखाता रह । कोई तेरी जवानों को तुच्छ न समझने  
पाए पर वचन और चालचलन और प्रेम और विश्वास  
और पवित्रता में विश्वासियों के लिये नमूना बन जा ।  
जब तक मैं न आज्ञा तब तक पढ़ने और उपदेश देने और  
सिखाने में मन लगाता रह । उस वरदान से जो तुझ में  
है और नबूवत के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय  
तुझे मिला था अचेत न रह । इन बातों को सोच और  
इन ही में लगा रह कि तेरी उन्नति सब पर प्रगट हो ।  
अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख । इन बातों  
पर बना रह क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने  
और अपने सुननेवालों के भी उद्धार का कारण होगा ॥

### ५. किसी बूढ़े को न डपट पर उसे पिता

जानकर समझा दे और जवानों  
को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों का माता जानकर  
और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बाँहन  
जानकर समझा दे । उन विधवाओं का जो सचमुच  
विधवा हैं आदर कर । और यदि किसी विधवा के लड़के  
बाले या नाती पांत हों तो वे पहिले अपने ही घराने के  
साथ भक्ति का बरताव करना और अपने माता पिता  
आदि को उन का इकठ्ठा देना सीखें क्योंकि यह परमेश्वर  
को भाता है । जो सचमुच विधवा है जिस का कोई  
नहीं वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन  
बिनती और प्रार्थना में लगी रहती है । पर जो भोग  
विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है । इन बातों  
की भी आज्ञा दिया कर इसलिये कि वे निर्दोष रहें ।  
पर यदि कोई अपनों और निज करके अपने घराने की  
चिन्ता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और  
अविश्वासी से भी बुरा है । उमा विधवा का नाम लिखा  
जाए जो साठ बरस से कम की न हो और एक ही पति  
का पत्नी रही हो । और भले काम में सुनाम रही हो  
जिस ने बच्चों को पाला पोसा हो पाहुनों की सेवा की  
हो पवित्र लोगों के पांव धोए हों दुखियों की सहायता  
की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो ।  
पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना क्योंकि जब वे

(३) य० । विश्वासयोग्य । (४) या । प्रिसभुतिरों ।

मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है  
 १२ तो ब्याह करना चाहती है। और दोषी ठहरती है  
 क्योंकि उन्होंने अपने पहिले विश्वास को छोड़ दिया  
 १३ है। और इस के साथ ही साथ वे घर घर फिर कर  
 आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी  
 नहीं पर बकबक करती रहती और औरों के  
 काम में हाथ भी डालती और अनुचित बातें बोलती  
 १४ हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि जवान विधवाएँ  
 ब्याह करें और बच्चे जनें और घरबार संभालें और  
 किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें।  
 १५ क्योंकि कई एक तो बहककर शैतान के पीछे हो चुकी  
 १६ हैं। यदि किसी विश्वासिनी के यहां विधवाएँ हों तो  
 वही उन की सहायता करे कि मण्डली पर भार न हो  
 कि वह उन की सहायता कर सके जो सचमुच  
 विधवाएँ हैं ॥

१७ जो प्राचीन<sup>१</sup> अञ्छा प्रबन्ध करते हैं विशेष करके  
 वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं  
 १८ दो गुने आदर के योग्य समझे जाएँ। क्योंकि पवित्र  
 शास्त्र कहता है कि दावनेवाले बैल का मुँह न बांधना  
 १९ और मजदूर अपनी मजदूरी का हक्कदार है। कोई दोष  
 किसी प्राचीन<sup>२</sup> पर लगाया जाए तो बिना दो या तीन  
 २० गवाहों के उस को न सुन। पाप करनेवालों को सब के  
 २१ सामने समझा दे कि और लोग भी डरें। परमेश्वर और  
 मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को हाज़िर जानकर  
 मैं तुम्हें चिंताता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को  
 २२ माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। किसी  
 पर शीघ्र हाथ न रख और दूसरों के पापों में भागी  
 २३ न हो। अपने आप को पवित्र रख। आगे केवल  
 जल का पीनेवाला न रह पर अपने पेट के और अपने  
 २४ काम में लाया कर। कितने मनुष्यों के पाप प्रगट हो  
 जाते और न्याय के लिये पहिले से पहुंच जाते पर कितनों  
 २५ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कितने भले काम भी प्रगट  
 होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं  
 सकते ॥

६. जितने दास जूए के नीचे हैं वे अपने

अपने स्वामी को सारे आदर के  
 योग्य जानें कि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निन्दा  
 २ न हो। और जिन के स्वामी विश्वासी हैं इन्हें वे भाई  
 होने के कारण तुच्छ न जानें पर इसलिये उन की और

भी सेवा करें कि इस के लाभ उठानेवाले विश्वासी और  
 प्यारे हैं। इन बातों का उपदेश कर और समझाता रह ॥

यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और ३  
 खरी बातों को अर्थात् हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों  
 और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार ४  
 है। तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं  
 जानता बरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का  
 रोग है जिन से डाह और भगड़े और निन्दा की बातें ५  
 और बुरे बुरे सन्देश, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े  
 भगड़े उत्पन्न होते हैं जिन की बुद्धि बिगड़ी और जिन से  
 सत्य छिनि लिया गया है जो समझते हैं कि भक्ति  
 कमाई का द्वार है। पर सन्तोष सहित भक्ति बड़ी कमाई ६  
 है। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए और न कुछ ७  
 ले जा सकते। और यदि हमारे पास खाने और पहिरने ८  
 का हो तो इन्हीं पर सन्तोष करना चाहिए। पर जो ९  
 धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और  
 बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारी लालसाओं में फंसते हैं जो  
 मनुष्यों को बिगाड़ और विनाश के समुद्र में डुबा देती १०  
 हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब बुराइयों की जड़ है जिसे  
 प्राप्त करने का यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से  
 भटककर अपने आप को बहुत दुखों से वार पार  
 छोड़ा है ॥

पर हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग ११  
 और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का  
 पीछा कर। विश्वास की अञ्छी कुरती लड़ और उस १२  
 अनन्त जीवन को धर ले जिस के लिये तू गुलाया गया  
 और बहुत गवाहों के सामने अञ्छा अंगीकार किया  
 था। मैं तुम्हें परमेश्वर को जो सब को जीता रखता है १३  
 और मसीह यीशु को गवाह करके जिस ने पुन्तियुस  
 पीलातुस के सामने अञ्छा अंगीकार किया यह आज्ञा १४  
 देता हूँ कि, तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक १५  
 इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। जिसे वह १५  
 ठीक समयों में दिखाएगा जो परमधन्य और अद्वैत  
 अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु १६  
 है। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य  
 ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा  
 और न कभी देख सकता है। इस की प्रतिष्ठा और पर-  
 क्रम युगानुयुग रहे। आमीन ॥

इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभि- १७  
 मानी न हों न कि चंचल धन पर आज्ञा रखें परन्तु  
 परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिये सब कुछ बहुतायत  
 से देता है। और भलाई करें और भले कामों में धनी १८

- १९ बनें और उदार और बांटने पर तैयार हों । और आगे के लिये एक अच्छी नेव डाल रखें कि सत्य जीवन को घर लें ॥
- २० हे तीमुथियुस इस थाती की रखवाली कर और

जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उस के अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों में परे रह । कितने इस २१ ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से चूक गए हैं ॥ तुम पर अनुग्रह होता रहे ॥

## तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री ।

१. पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है पर-  
२ मेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्यारे पुत्र तीमुथियुस के नाम ॥  
परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर मे तुम्हें अनुग्रह और दया और शान्ति मिलती रहे ॥  
३ जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ उस का धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें लगातार स्मरण करता हूँ ।  
४ और तैरे आसुओं की सुध कर करके रात दिन तुम्ह से भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनन्द से भर जाऊँ ।  
५ और मुझे तैरे उस निष्कपट विश्वास की सुध आती है जो पहिले तैरी नानी लोइस और तैरी माता यूनीके में था  
६ और मुझे निश्चय हुआ है कि तुम्ह में भी है । इसी कारण मैं तुम्हें सुध दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिला है चमका ।  
७ क्योंकि परमेश्वर ने हमें कदराई का नहीं पर सामर्थ और  
८ प्रेम और संयम का आत्मा दिया है । इसलिये हमारे प्रभु की गवाही से और मुझ से जो उस का क़ैदी हूँ लाजत न हो पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार  
९ सुसमाचार के लिये मेरे साथ दुख उठा । जिस ने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम  
१० पर हुआ । पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकाश के द्वारा प्रगट हुआ जिस ने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा  
११ प्रकाश कर दिया । जिस के लिये मैं प्रचारक और प्रेरित  
१२ और उपदेशक ठहरा । इस कारण मैं इन दुखों को भी  
(१) या । मन । कांसस ।

उठाता हूँ पर लजाता नहीं क्योंकि मैं उसे जिस की मैं ने प्रतीति की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है । जो १३ खरी बातें तू ने मुझ से सुनीं उन को उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना नमूना बनाकर रख । और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ १४ है इस अच्छी थाती की रखवाली कर ॥

तू जानता है कि आसियावाले सब मुझ से फिर १५ गए हैं जिन में फूगिलुस और हिरमुगिनेस हैं । उनेसि- १६ फुरुस के घराने पर प्रभु दया करे क्योंकि उस ने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से नहीं लजाया । पर जब वह रोमा में आया तो बड़े यत्न से १७ ढूँढकर मेरी भेंट की । प्रभु करे कि उस दिन उस पर १८ प्रभु की दया हो । और जो जो सेवा उस ने इफिसुस में की उन्हें भी तू भली भाँति जानता है ॥

२. सो हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवन्त हो जा । और जो २ बातें तू ने बहुत गवाहों के सामने मुझ से सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों । मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की नाई मेरे ३ साथ दुख उठा । जब कोई सिपाही लड़ाई पर जाता है ४ तो इसलिये कि अपने भरती करनेवाले को प्रसन्न करे अपने आप को संसर के कामों में नहीं फंसता । फिर ५ अखाड़े में खेलनेवाला यदि विधि के अनुसार न खेले तो मुकुट नहीं पाता । जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल ६ का अंश पहिले उसे मिलना चाहिए । जो मैं कहता हूँ ७ उस पर ध्यान कर और प्रभु तुम्हें सब बातों की समझ देगा । यीशु मसीह के स्मरण रख जो दाऊद के बंश से ८ हुआ और मरेहुओं में से जी उठा और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है । जिस के लिये मैं कुकर्मी की नाई दुख ९

उठाता हूँ यहाँ तक कि क्रैद भी हूँ परन्तु परमेश्वर का  
 १० वचन क्रैद नहीं । इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिये  
 सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह  
 ११ यीशु में है अनन्त महिमा के साथ पाएँ । यह बात सच<sup>१</sup>  
 है कि यदि हम उस के साथ मर गए हैं तो उस के साथ  
 १२ जीएँगे भी । यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उस के  
 साथ राज्य भी करेंगे । यदि हम उस से मुकरेंगे तो वह  
 १३ भी हम से मुकरेगा । यदि हम अविश्वासी भी हों तौभी  
 वह विश्वास योग्य बना रहता है क्योंकि वह अपने आप  
 को नकार नहीं सकता ॥

१४ इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने  
 चिता दे कि वे शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें जिन  
 से कुछ लाभ नहीं होता बरन सुननेवाले विगड़ जाते  
 १५ हैं । अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा  
 काम करनेवाला ठहराने का यत्न कर जो लजाने न पाए  
 और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता  
 १६ हो । पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह क्योंकि ऐसे लोग  
 १७ और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे । और उन का वचन  
 सड़े धाव की नाई फैलता जाएगा । हुमिनयुस और  
 १८ फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान<sup>२</sup>  
 हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के  
 १९ विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं । तौभी परमेश्वर की  
 पक्की नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है  
 कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का  
 २० नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे । बड़े घर में न  
 केवल सोने चाँदी ही के पर काठ और मिट्टी के बरतन  
 भी होते हैं और कोई कोई आदर और कोई कोई अना-  
 २१ दर के लिये हैं । सो यदि कोई अपने आप को इन से  
 शुद्ध करेगा तो वह आदर का बरतन और पवित्र ठहरेगा  
 और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिये  
 २२ तैयार होगा । जवानी के अभिलाषों से भाग और जो  
 शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उन के साथ धर्म और  
 २३ विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर । पर  
 मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह क्योंकि तू  
 २४ जानता है कि उन से भगड़े होते हैं । और प्रभु के दास  
 को भगड़ालू होना न चाहिए पर सब के साथ कामल  
 २५ और शिष्टा में निपुण और सहनशील हो । और  
 विरोधियों को नम्रता से समझाए क्या जाने परमेश्वर उन्हें  
 २६ मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचानें । और  
 इस के द्वारा उस की इच्छा पूरी करने के लिये सचेत  
 होकर शैतान<sup>३</sup> के फंदे से छूट जाए ॥

(१) यू० । विश्वासयोग्य । (२) या । मृतकोत्थान । (३) यू० । हवलीस ।

३ पर यह जान रख कि पिछले दिनों में कठिन  
 समय आएंगे । क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी २  
 लोभी डींगमार अभिमानी निन्दक माता पिता की आशा  
 टालनेवाले कृतघ्न अपवित्र, मयारहित क्षमारहित दोष  
 लगानेवाले अभयमी कठोर भले के बैरी, विश्वासघाती ३  
 ढीठ घमंडी और परमेश्वर के नहीं बरन सुखविलास ही ४  
 के चाहनेवाले होंगे । वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उस ५  
 की शक्ति को न मानेंगे ऐसों से परे रह । इन्हीं में से वे ६  
 लोग हैं जो घरों में दब पांव से घुस आते और उन  
 छिछोरी स्त्रियों को बश कर लेते हैं जो पापों से दबी और ७  
 नाना प्रकार के अभिलाषों के चलाए चलती हैं । और ८  
 सदा सीखती रहती पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं  
 पहुँचती हैं । और जैसे यजेस और यम्ब्रेस ने मूसा का ९  
 सामना किया वैसे ही ये भी सत्य का सामना करते हैं ये  
 तो ऐसे मनुष्य हैं जिन की बुद्धि विगड़ गई और वे  
 विश्वास के विषय निकम्मे हैं । पर वे इस से आगे ९  
 नहीं बढ़ सकते क्योंकि जैसे उन की अज्ञानता सब मनुष्यों  
 पर प्रगट हो गई थी वैसे ही इन की भी हां जाएगी ।  
 पर तू ने उपदेश चालचलन मनसा विश्वास सहन- १०  
 शीलता प्रेम धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में  
 मेरा साथ दिया । और ऐसे दुखों में जो अन्ताकिया ११  
 और इकुनियुम और लुस्ना में मुझ पर पड़े और और  
 दुखों में भी जो मैं ने उठाए हैं परन्तु प्रभु ने मुझे उन  
 सब से लुड़ा लिया । पर जितने मसीह यीशु में भक्ति १२  
 के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे ।  
 और दुष्ट और बहकानेवाले धोखा देते हुए और धोखा १३  
 खाते हुए विगड़ते चले जाएंगे । पर तू इन बातों पर जो १४  
 तू ने सीखी और प्रतीति की थी यह जानकर बना रह  
 कि तू ने उन्हें किन से सीखा था । और बालकपन से १५  
 पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर  
 विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिये बुद्धिमान १६  
 कर सकता है । हर एक पवित्रशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा १६  
 से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने  
 और धर्म की शिक्षा के लिये लाभदायक है । कि परमेश्वर १७  
 का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिये तैयार  
 हो जाए ॥

४. परमेश्वर और मसीह यीशु को  
 गवाह करके जा जीवतों  
 और मरे हुएओं का न्याय करेगा उसे और उस के प्रगट  
 होने और राज्य को सुध दिलाकर चिताता हूँ । कि २  
 तू वचन को प्रचार कर समय और असमय तैयार रह  
 सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ

- ३ उलाहना दे और डांट और समझा । क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सहेंगे पर कानों के सुरसुराने के कारण अपने अभिलाषों के अनुसार अपने ४ लिये बहुतेरे उपदेशक बढेरेंगे । और अपने कान सत्य ५ से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे । पर तू सब बातों में सचेत रह दुख उठा सुसमाचार प्रचारक का ६ काम कर अपनी सेवा को पूरा कर । क्योंकि अब मैं अर्थ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ ७ पहुँचा है । मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका मैं ने अपनी दौड़ ८ पूरा कर ली मैं ने विश्वास को रखवाली की । आगे के मेरे लिये धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मो न्यायी है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं बरन उन सब के भी जो उस के प्रगट होने के प्रिय जानते हैं ॥
- ९, १० मेरे पास शीघ्र आने का यत्न कर । क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थस्मलुनोके को चला गया और क्रैसकेंस गलतिया को ११ और तितुस दलमतिया को चला गया । केवल लूका मेरे साथ है मरकुस को लेकर चला आ क्योंकि सेवा के लिये १२ वह मरे बहुत काम का है । तुखिकुस को मैं ने इफिसुस १३ को भेजा । वे चागा मैं त्रोयस में कपुस के यद

छोड़ आया जब तू आए तो उसे और पुस्तकें निज करके चर्मपत्रों को लेते आना । सिकन्दर ठठेरे ने मुझे १४ से बहुत बुराईयाँ कीं प्रभु उसे उस के कामों के अनुसार बदला देगा । तू भी उससे चौकस रह क्योंकि उस ने १५ हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया । मेरे पहिले १६ उन्नर करने के समय किसी ने मेरा साथ न दिया पर सब ने मुझे छोड़ दिया । भला हो कि इस का उन को लेखा देना न पड़े । परन्तु प्रभु मेरा सहायक रहा और १७ मुझे सामर्थ्य दी कि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्यजाति सुनें और मैं तो सह के मुंह से छुड़ाया गया । और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने १८ स्वर्गीय राज्य में उदार करके पहुँचाएगा । उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे । आमीन ॥

प्रिसका और अक्विला को और उनेसिफुरुस के १९ घराने को नमस्कार । इरास्कस कुरिन्थुस में रह गया २० और त्रुफिमुस को मैं ने मीलेथुस में बीमार छोड़ा । जाड़े से पहिले चले आने का यत्न कर । यूव्लुस और २१ पूर्वस और लीनुस और झौदिया और शारे भाइयों का तुम्हें नमस्कार ॥

प्रभु तेरे आत्मा के साथ रहे । तुम पर अनुग्रह २२ होता रहे ॥

## तितुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री ।

१. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पश्चान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है । २ उस अनन्त जीवन की आशा पर जिस की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो भूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है । पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रगट किया जो हमारे उदारकर्ता परमेश्वर की आशा के अनुसार मुझे सौंपा गया । तितुस के नाम जो साधारण विश्वास के अनुसार मेरा सच्चा पुत्र है ॥
- परमेश्वर पिता और हमारे उदारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शान्ति होती रहे ॥
- ५ मैं इसलिये तुम्हें क्रेते में छोड़ आया था कि तू रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आशा के अनुसार

नगर नगर प्राचीनों को ठहराए । जो निर्दोष और ६ एक ही एक पत्नी के पति हों जिन के लड़के वाले विश्वासी हों और जिन्हें लुचगन और निरंकुशता का दोष नहीं । क्योंकि अध्यक्ष<sup>२</sup> के परमेश्वर का भएडारी ७ होने के कारण निर्दोष होना चाहिए न हठी न क्रोधी न पियकड़ न मार पीट करनेवाला और न नोच कमाई का लोभी । पर पहनुई करनेवाला भलाई का चाहनेवाला ८ सयमी न्यायी पवित्र और जितेन्द्रिय हो । और विश्वास ९ योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है बना रह कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बन्द कर सके ॥

क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश बकवादी और धोखा १० देनेवाले हैं विशेष कर खतनावालों में से । इन का मुंह ११

(१) या । प्रिसकुतिरिं । (२) या । विशप ।

## इब्रानियों के नाम पत्री ।

१. परमेश्वर ने पुराने समय बापदादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति २ भांति से नबियों के द्वारा बातें करके, इन दिनों के अन्त में हम से पुत्र के द्वारा बातें कीं जिसे उस ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उस ने ३ सारे जगत बनाए हैं। वह उस की महिमा का प्रकाश और उस के तत्त्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दहिने जा बैठा। ४ और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना वह उन से बड़े पद का वारिस हुआ। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उस ने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है आज मैं ही ने तुम्हें जन्माया है और फिर यह कि मैं उस का पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। और जब पहलौठे के जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब ७ स्वर्गदूत उसे प्रणाम करें। और स्वर्गदूतों के विषय यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों ८ को धक्कती आग बनाता है। परन्तु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा तेरे राज्य ९ का राजदण्ड न्याय का राजदण्ड है। तू ने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रक्खा इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल १० से तुम्हें अभिषेक किया। और यह कि हे प्रभु आदि में तू ने पृथिवी की नेब डाली और स्वर्ग तेरे हाथों ११ की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे पर तू बना रहेगा और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे। और १२ तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे पर तू वही है और तेरे बरसों का अन्त न १३ होगा। और स्वर्गदूतों में से उस ने किस से कब कहा कि तू मेरे दहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के १४ नीचे की पीढ़ी न कर दू। क्या वे सब सेवा टहल करनेवाले आत्मा नहीं जो उद्धार पानेवालों के लिये सेवा करने को भेजे जाते हैं ॥

२. इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हम ने सुनी हैं और भी मन

१ लगाएँ ऐसा न हो कि बहकर दूर निकल जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया जब वह पका रहा

और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से ३ निश्चिन्त रहकर क्योंकर बच सकते हैं जिस की चर्चा पहिले पहिले प्रभु के द्वारा हुई और सुननेवालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी ४ इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामथ के कामों और पवित्र आत्मा के बरदानों के बाँटने के द्वारा इस की गवाही देता रहा।

क्योंकि उस ने उस आनेवाले जगत को जिस की ५ चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया। पर किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उस की सुध लेता है या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तू ने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम ७ किया तू ने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रक्खा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया, तू ने ८ सब कुछ उस के पांवों के नीचे कर दिया। सो जब कि उस ने सब कुछ उस के अधीन कर दिया तो उस ने कुछ भी रख न छोड़ा जो उस के अधीन न हो। पर अब हम तक सब कुछ उस के अधीन नहीं देखते। पर हम यीशु ९ को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहिने हुए देखते हैं इसलिये कि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिये मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिस १० के लिये सब कुछ है और जिस के द्वारा सब कुछ है उसे यही फवा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाये तो उन के उद्धार के कर्त्ता को दुख उठाने के द्वारा मिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करनेवाला और जो पवित्र किये ११ जाते हैं सब एक ही मूल से हैं इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। पर कहता है कि मैं तेरा १२ नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा १३ रखूंगा और फिर यह भी कि देख मैं और जो लड़के परमेश्वर ने मुझे दिए। इसलिये जब कि लड़के मांस और १४ लोह के भागी हैं वह आप भी वैसे ही इन का भागी हो गया इसलिये कि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात् शैतान के निकम्मा कर दे। और जितने १५

मृत्यु के मय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें  
 १६ हुड़ा ले । क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं बरन इब्रा-  
 १७ हीम के वंश को संभालता है । इस कारण उस को चाहिए  
 था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने जिस  
 से वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं दयाल  
 और विश्वासयोग्य महायाजक हो कि लोगों के पापों के  
 १८ लिये प्रार्थित करे । क्योंकि जब कि उस ने परीक्षा की  
 दशा में दुख उठाया तो वह उन की भी सहायता  
 कर सकता है जिन की परीक्षा की जाती है ॥

### ३. सो

हे पवित्र भाइयो जो स्वर्गीय बुला-  
 २ हट में भागी हो उस प्रेरित और  
 महायाजक यीशु पर जिसे हम मानते हैं ध्यान करो । जो  
 अपने ठहरानेवाले के लिये विश्वासयोग्य रहा जैसा मूसा  
 ३ भी उस के सारे घर में था । क्योंकि वह मूसा से इतना  
 बढ़ कर महिमा के योग्य समझा गया है जितना कि घर  
 ४ का बनानेवाला घर से बढ़कर आदर रखता है । क्योंकि हर  
 एक घर का कोई न कोई बनानेवाला होता है पर जिस  
 ५ ने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है । मूसा तो उस के  
 सारे घर में सेवक की नाई विश्वासयोग्य रहा कि जिन  
 ६ बातों की चर्चा होनेवाली थी उन की गवाही दे । पर  
 मसीह पुत्र की नाई उस के घर का अधिकारी है और  
 उस का घर हम हैं जब कि हम हियाव पर और अपनी  
 ७ आशा के घमण्ड पर अपने को अत लो थामे रहें । सो जैसा  
 पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उस का शब्द  
 ८ सुनो । तो अपने मन कठोर न करो जैसा कि रिस दिलाने  
 ९ के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था । जहां  
 तुम्हारे बापदादों ने जांच जांचकर मुझे परखा और चालीस  
 १० बरस तक मेरे काम देखे । इस कारण मैं उस समय के  
 लोगों से रूठा रहा और कहा कि इन के मन सदा भट-  
 कते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना ।  
 ११ सो मैं ने क्रोध में आकर किरिया खाई कि वे मेरे विश्राम  
 १२ में प्रवेश करने न पाएंगे । हे भाइयो चौकस रहो कि तुम  
 में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीविते परमे-  
 १३ श्वर से हट जाए । बरन जिस दिन तक आज का दिन कहा  
 जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहे ऐसा न हो  
 कि तुम में से कोई जन पाप के छुल में आकर कठोर हो  
 १४ जाए । क्योंकि हम मसीह के भागी तो हुए हैं जब कि  
 १५ हम अपना पहिला निश्चय अन्त लो थामे रहें । जैसा  
 कहा जाता है कि यदि आज तुम उस का शब्द सुनो तो  
 अपने मनो को कठोर न करो जैसा कि रिस दिलाने  
 १६ के समय किया था । भला किन लोगों ने सुन कर रिस  
 दिखाया । क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिसर

से निकले थे । और वह चालीस बरस लो किन लोगों से १७  
 रूठा रहा । क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने ने पाप किया और  
 उन की लोथें जंगल में पड़ी रहीं । और उस ने किन १८  
 से किरिया खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न  
 पाओगे केवल उन से जिन्होंने ने आशा न मानी । सो हम १९  
 देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके ॥

### ४. इसलिये जब कि उस के विश्राम में

प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है  
 तो हमें डरना चाहिए ऐसा न हो कि तुम में से कोई २  
 जन उस से रहित जान पड़े । क्योंकि हमें उन्हीं की नाई २  
 सुसमाचार सुनाया गया है पर सुने हुए वचन से उन्हें  
 कुछ लाभ न हुआ क्योंकि सुननेवालों के मन में विश्वास ३  
 के साथ न बैठा । और हम जिन्होंने ने विश्वास किया है ३  
 उस विश्राम में प्रवेश करते हैं जैसा उस ने कहा कि मैं  
 ने क्रोध कर किरिया खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश  
 करने न पाएंगे पर हां जगत की उत्पत्ति के समय से उस  
 के काम हो चुके थे । क्योंकि सातवें दिन के विषय ४  
 उस ने कहीं यों कहा है कि परमेश्वर ने सातवें दिन  
 अपने सब काम पूरे करके विश्राम किया । और इस ५  
 जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न  
 करने पाएंगे । सो जब यह बात बाकी रही कि कितने ६  
 ही उस में प्रवेश करें और जिन्हें उस का सुसमाचार  
 पहिले सुनाया गया उन्हीं ने आशा न मानने के कारण ७  
 प्रवेश न किया, तो फिर वह किसी विशेष दिन को ७  
 ठहराकर इतने दिन के पीछे दाऊद की पुस्तक में उसे  
 आज का दिन कहता है जैसे पहिले कहा गया कि यदि ८  
 आज तुम उस का शब्द सुनो तो अपने मनो को कठोर न ८  
 करो । और यदि यहांशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता ८  
 तो उस के पीछे दूसरे दिन की चर्चा न होती । सो जान ९  
 लो कि परमेश्वर के लोगों के लिये विश्राम के दिन का ९  
 सा विश्राम बाकी है । क्योंकि जिस ने उस के विश्राम १०  
 में प्रवेश किया है उस ने परमेश्वर की नाई अपने कामों १०  
 के पूरा करके विश्राम किया है । सो हम उस विश्राम ११  
 में प्रवेश करने का यत्न करें ऐसा न हो कि कोई जन ११  
 उन की नाई आशा न मान कर गिर पड़े । क्योंकि १२  
 परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक १२  
 दोधारी तलवार से भी बहुत चांखा है और जीव और १२  
 आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके १२  
 वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों १३  
 को जांचता है । और सृष्टि की कोई वस्तु उस से छिपी १३



नहीं पर जिस से हमें काम है उस की आंखों के सामने सारी वस्तुएं उबड़ी और खुली हुई हैं ॥

- १४ सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात् परमेश्वर का पुत्र यीशु तो  
१५ आओ हम अपने भ्रंशीकार को धरे रहें । क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके बरन वह सब बातों में हमारी  
१६ नाई परखा तो गया तौभी निश्चय निकला । इसलिये आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो जूरुरत के समय हमारी सहायता करे ॥

**५. क्योंकि** हर एक महायाजक मनुष्यों

- में से लिया जाता और मनुष्यों ही के लिये उन बातों के विषय जो परमेश्वर से संबन्ध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे । और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नमी से व्यवहार कर सकता है इसलिये कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है । और इसी लिये उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिये वैसे अपने लिये भी पाप-बलि चढ़ाया करे । और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हासून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए । वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से न ली पर उम का उसी ने दी जिस ने उस से कहा था कि तू मेरा पुत्र है आज मैं ही ने तुम्हें जन्माया है । वह दूसरी जगह में भी कहता है तू मलिकिसदक की रीति पर सदा के लिये याजक है । उस ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकारकर और आंसू बहा बहाकर उस से जो उस को मृत्यु से बचा सकता था बिनती और निवेदन किए और भक्ति के कारण उस की सुनो गइ । और पुत्र होने पर भी उम ने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी । और सिद्ध निकलकर अपने सब आज्ञा माननेवालों के लिये सदा काल के उद्धार का कारण हुआ । और परमेश्वर ने उसे मलिकिसदक की रीति पर महायाजक करके कहा ॥
- ११ इस के विषय हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिन का समझाना भी कठिन है इसलिये कि तुम ऊंचा सुनने लगे । समय के लेख से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिये था तौभी अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के बचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए

(१) या । उद्धार कर ।

हो कि तुम्हें अब के बदले अब तक दूध ही चाहिए । क्योंकि दूध पीते बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि बालक है । पर अब सयानों के लिये है । जन के ज्ञानेन्द्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिये पक्के हो गए हैं ॥

**६. सो** आओ मसीह के वचन की आरम्भ

की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, और बपातसमों और हाथ रखने और मरे हुआं के जी उठने और अन्तिम न्याय की शिक्षारूपी नेव फिर से न डाल । और परमेश्वर चाहें तो हम यही करेंगे । क्योंकि जिन्हों ने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आनेवाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके । और फिर गए तो उन्हें मन फिराने के लिये फिर नया बनाना अन्होना है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिये फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं । और जो भूमि वर्ग के पानी को जा उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिये वह जोती बाई जाती है उन के काम का साग-पात उपजाती है वह परमेश्वर से आशिष पाती है । पर याद वह भाड़ी और ऊटकटार उगाती है तो निकम्मी और स्थापित होने पर है और उस का अन्त जलाया जाना है ॥

पर हे प्यारो ऐसी ऐसी बातें करने पर भी तुम्हारे विषय हम इस से अच्छी और उदारवाली बातों का भगोसा करते हैं । क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुम ने उस के नाम के लिये इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर रहे हो । पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अन्त लो पुरी आशा के लिये ऐसा ही यत्न करता रहे, कि तुम आलसी न हो जाओ बरन उन का अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं ॥

और परमेश्वर ने इब्राहीम को प्रतिज्ञा देते समय जब कि किरिया खाने के लिये किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही किरिया खाकर कहा, कि मैं सच-मुच तुम्हें बहुत आशिष दूंगा और तेरे सन्तान बढ़ाता

(२) या । मृतकोस्थान ।

१५ जाऊंगा । और इस रीति से उस ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा  
 १६ की हुई बात प्राप्त की । मनुष्य तो अपने से किसी  
 बड़े की किरिया खाया करते हैं और उन के हर एक  
 १७ विवाद का फैसला किरिया से पक्का होता है । हम  
 लिये जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों को और  
 भी साक़ दिखाना चाहा कि मेरी मनसा बदलने  
 १८ की नहीं तो किरिया को बीच में लाया । कि दो बे-बदल  
 बातों के द्वारा जिन में परमेश्वर का भूठ बोलना अन्होना  
 है हम को जो ठहराई हुई आशा धर लेने के लिये शरण  
 १९ में दौड़े हैं पूरी शांति हो जाए । वह आशा हमारे प्राण  
 के लिये मानो लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और परदे  
 २० के भीतर तक पहुंचता है । जहां यीशु ने मलिकिसिदक  
 की रीति पर सदा काल का महायाजक ठहरकर और  
 हमारे लिये अगुवा होकर प्रवेश किया है ॥

### ७. यह मलिकिसिदक सालेम का राजा और परम

प्रधान परमेश्वर का याजक सदा के लिये  
 याजक बना रहता है । जब इब्राहीम राजाओं को मारकर  
 लौटा जाता था तो इसी ने उस से भेंट करके आशिष  
 २ दी । इसी को इब्राहीम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश  
 दिया । यह पहिले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म  
 का राजा और फिर शालेम अर्थात् शान्ति का राजा है ।  
 ३ जिस का न पिता न माता न वंशावली है जिस के न  
 दिनों का आदि न जीवन का अन्त है परन्तु परमेश्वर  
 के पुत्र के समान ठहरा ॥  
 ४ अब सोचो कि यह कैसा मदान् था जिस को कुल-  
 पति इब्राहीम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दसवां  
 ५ अंश दिया । लेवी के सन्तान में से जो याजक का पद  
 पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात् अपने  
 भाइयों से चाहे वे इब्राहीम ही की देह से क्यों न जन्मे  
 ६ हों व्यवस्था के अनुसार दसवां अंश लें । पर इस ने जो  
 उन की वंशावली में का नहीं इब्राहीम से दसवां अंश  
 लिया है और जिसे प्रतिज्ञाएं मिलीं उसे आशिष दी ।  
 ७ और इस में संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशिष पाता  
 ८ है । और यहां तो मरनहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं  
 पर वहां वही लेता है जिस की गवाही दी जाती है कि  
 ९ वह जीता है । सो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने  
 भी जो दसवां अंश लेता है इब्राहीम के द्वारा दसवां अंश  
 १० दिया । क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उस के पिता  
 से भेंट की उस समय यह अपने पिता की देह में था ॥  
 ११ सो यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्ध हो  
 सकती जिस के सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी तो  
 फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक

की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति पर का न  
 कहलाए । क्योंकि जब याजक पद बदला जाता है तो १२  
 व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है । जिस के विषय १३  
 ये बातें कही जाती हैं वह दूसरे गोत्र का है जिस में से  
 किसी ने बंदी की सेवा नहीं की । क्योंकि प्रगट है कि १४  
 हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र से उदय हुआ और इस गोत्र  
 के विषय मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की ।  
 और इस से हमारी यह बात और भी प्रगट हो जाएगी कि १५  
 मलिकिसिदक के समान एक और ऐसा याजक खड़ा हाने-  
 वाला था । जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार १६  
 नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार ठहरा ।  
 क्योंकि उस के विषय यह गवाही दी गई है कि तू १७  
 मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है । सो १८  
 पहिली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप  
 हो गई, इसलिये कि व्यवस्था से किसी बात की सिद्धि १९  
 नहीं हो सकती और उस की जगह एक ऐसी उत्तम  
 आज्ञा रखी गई जिस के द्वारा हम परमेश्वर के समीप  
 पहुंचते हैं । और इस लिये कि उस का ठहराया जाना २०  
 बिना किरिया नहीं हुआ ( क्योंकि वे तो बिना किरिया २१  
 याजक ठहराए गए पर यह किरिया के साथ उस की  
 ओर से ठहरा जिस ने उस से कहा प्रभु ने किरिया खाई  
 और उस से न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है )  
 इसलिये यीशु एक उत्तम वाचा का ज़ामिन ठहरा । २२  
 और वे तो बहुत से याजक बनते आए इस कारण कि मृत्यु २३  
 उन्हें रहने न देती थी । पर यह युगानुयुग रहता है इस २४  
 कारण उस का याजक पद अटल है । इसी लिये जो उस २५  
 के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उन का पूरा  
 पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उन के लिये  
 बिनती करने को सदा जीता है ॥

सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र २६  
 और सधा और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग  
 से भी ऊंचा किया हुआ हो । और उन महायाजकों की २७  
 नाईं उसे अवश्य नहीं कि दिन दिन पहिले अपने पापों  
 और फिर लोगों के पापों के लिये बाल चढ़ाए क्योंकि  
 अपने आप को चढ़ाकर वह उसे एक ही बार कर चुका ।  
 क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक ठहराती २८  
 है पर जो वचन व्यवस्था के पीछे किरिया के साथ कहा गया  
 वह पुत्र को ठहराता है जो युगानुयुग सिद्ध किया गया है ॥

### ८. जो बातें हम कह रहे हैं उन में से सब में

बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महा-  
 याजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दहिने  
 जा बैठा । और पवित्र स्थान और उस सब तंबू का सेवक २

हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बरन प्रभु ने खड़ा किया ३ था । क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिये ठहराया जाता है इस कारण अवश्य है कि ४ इस के पास भी कुछ चढ़ाने के लिये हो । और यदि वह पृथिवी पर होता तो कभी याजक न होता इसलिये कि ५ व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ानेवाले तो हैं । जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिम्ब की सेवा करते हैं जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चितावनी मिली कि देख जो नमूना तुम्हें पहाड़ पर दिखाया गया ६ था उस के अनुसार सब कुछ बनाना । पर उस को उन की सेवकाई से बढ़कर मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का विचवई ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के ७ सहारे बांधी गई । क्योंकि यदि वह पहिली वाचा निर्दोष ८ होती तो दूसरी के लिये अवसर न ढूँढा जाता । पर वह उन पर दांप लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राईल के घराने के साथ और ९ यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा । यह उस वाचा के समान न होगी जो मैं ने उन के बापदादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उन का हाथ पकड़कर उन्हें मिसर देश से निकाल लाया क्योंकि वे मेरी वाचा पर न रहे और मैं ने उन को सुध न ली, प्रभु यही कहता १० है । फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के पीछे इस्राईल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उन के मनो में डालूंगा और उसे उन के हृदय पर लिखूंगा और मैं उन का परमेश्वर ११ ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे । और हर एक को अपने स्वदेशी और हर को अपने भाई को यह कहकर न सिखाना पड़ेगा कि तू प्रभु को पहचान क्योंकि १२ छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे । क्योंकि मैं उन के अधर्म के विषय दयावान् हूँगा और उन के पापों को १३ फिर स्मरण न करूँगा । नई वाचा कहने से उस ने पहिली वाचा पुरानी ठहराई और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाता है वह मिट जाने पर है ॥

**६. निदान** उस पहिली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान

२ जो इस जगत का था । अर्थात् तम्बू बनाया गया पहिले तम्बू में दीवट और मेज और भेंट का रोटियां थीं और ३ वह पवित्र स्थान कहलाता है । और दूसरे परदे के पीछे ४ वह तम्बू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है । उस में सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का सन्दूक और इस में मान से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिस में फूल फल आ

गए थे और वाचा की पटिया थी । और उस के ५ ऊपर दोनों तेजोमय करुब थे जो प्रायश्चित्त के ढकने पर छाया किए हुए थे । इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है । जब ये वस्तुएं ६ इस रीति से तैयार हो चुकीं तब पहिले तम्बू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निवाहते आए हैं । पर दूसरे में केवल महायाजक बरस भर ७ में एक बार जाता है और लोहू बिना नहीं जाता जिसे अपने लिये और लोगों की भूल चूक के लिये चढ़ाता है । इस से पवित्र आत्मा यहां दिखाता है कि ८ जब तक पहिला तम्बू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रगट नहीं हुआ । और यह तो वर्तमान समय के ९ लिये दृष्टान्त है जिस में ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिन से सेवा करनेवालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते । इसलिये कि वे केवल खाने पीने की १० वस्तुओं और भांति भांति के बपातिसमों समेत शारीरिक नियम हैं जो सुधराव के समय तक ठहराए गए हैं ॥

पर मसीह जब आनेवाली अच्छी अच्छी वस्तुओं ११ का महायाजक होकर आया तो उस ने और भी बड़े और सिद्ध तम्बू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात् इस सृष्टि का नहीं । और बकरों और बछड़ों के १२ लोहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लोहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनन्त छुटकारा प्राप्त किया । क्योंकि जब बकरों और बैलों का लोहू १३ और कत्तोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिये पवित्र करती है । तो मसीह १४ का लोहू जिस ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम जीविते परमेश्वर की सेवा करो । और इसी कारण वह नई वाचा का १५ विचवई है कि उस मृत्यु के द्वारा जो पहिली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिये हुई बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनन्त मीरास को प्राप्त करें । क्योंकि जहां वाचा बांधी गई वहां वाचा बांधने-१६ वाले की मृत्यु का समझ लेना अवश्य है । क्योंकि ऐसी १७ वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधनेवाला जीता रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती । इसलिये पहिली वाचा भी लोहू बिना १८ नहीं बांधी गई । क्योंकि जब मूसा सब लोगों को १९ व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उस ने बछड़ों

(१) मग । या कांशस । (२) और पक्के हैं । आर्षे हुए । (३) या । बसीयत या विल हुई । (४) या । बसीयत या विल लिखनेवाले ।

- और बकरों का लोहू लेकर पानी और लाल ऊन और  
जूफा के साथ पुस्तक और सब लोगों पर छिड़क दिया ।  
२० और कहा यह उस बाचा का लोहू है जिस की आज्ञा  
२१ परमेश्वर ने तुम्हारे लिये दी है । और इसी रीति से  
उस ने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लोहू छिड़का ।  
२२ और मैं यह कह सकता हूँ कि व्यवस्था के अनुसार सब  
वस्तु लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू  
बहाए पापों की क्षमा नहीं होती ॥  
२३ सो अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप  
इन के द्वारा सिद्ध किए जाएं पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप  
२४ इन से उत्तम बलिदानों के द्वारा । क्योंकि मसीह ने उस  
हाथ के बनाये हुए पवित्रस्थान में जो सच्चे पवित्रस्थान  
का नमूना है प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश  
किया कि हमारे लिये अब परमेश्वर के सामने दिखाई  
२५ दे । यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए  
जैसा कि महायाजक बरस बरस दूसरे का लोहू लिये हुए  
२६ पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है । नहीं तो जगत  
की उत्पत्ति से लेकर उस को बार बार दुख उठाना पड़ता  
पर अब युग के अन्त में वह एक बार प्रगट हुआ है कि  
२७ अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे । और जैसे  
मनुष्यों के लिये एक बार मरना और उस के पीछे न्याय  
२८ का होना ठहरा है । वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों  
को उठा लेने के लिये एक बार चढ़ाया गया और जो  
लोग उस की बाट जोहते हैं उन के उद्धार के लिये  
दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा ॥

## १०. व्यवस्था में तो आनेवाली अच्छी

- वस्तुओं का प्रतिबिम्ब है  
पर इन का स्वरूप नहीं इसलिये उन एक ही प्रकार के  
बलिदानों के द्वारा जो बरस बरस चढ़ाए जाते हैं पास  
२ आनेवालों को कभी सिद्ध नहीं कर सकतीं । नहीं तो उन  
का चढ़ाना बन्द क्यों न हो जाता । इसलिये कि जब  
सेवा करनेवाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उन  
३ का विवेक<sup>१</sup> उन्हें पापी न ठहराता । परन्तु उन के द्वारा  
४ बरस बरस पापों का स्मरण हुआ करता । क्योंकि  
अनहोना है कि बैलों और बकरों का लोहू पापों को दूर  
५ करे । इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि  
बलिदान और भेंट तू ने न चाही पर मेरे लिये एक देह  
६ तैयार की । हाँम बालियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न  
७ न हुआ । तब मैं ने कहा हे परमेश्वर देख मैं आ गया  
हूँ पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा है कि तेरी इच्छा

- पूरी करूँ । ऊपर वह कहता है कि बलिदान और भेंट ८  
और होम बलियों और पाप बलियों को तू ने न चाहा  
और न उन से प्रसन्न हुआ और ये तो व्यवस्था के अनु-  
सार चढ़ाए जाते हैं । फिर यह भी कहता है कि देख मैं ९  
आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूरी करूँ सो वह पहिले को  
उठा देता है कि दूसरे को ठहराए । उसी इच्छा से हम १०  
यीशु मसीह की देह के एक ही बार चढ़ाये जाने के द्वारा  
पवित्र किये गये हैं । और हर एक याजक तो खड़े होकर ११  
हर दिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान  
जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता  
है । पर यह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सदा के १२  
लिये चढ़ा कर परमेश्वर के दहिने जा बैठा । और वह १३  
इस की बाट जोह रहा है कि उस के बैरी उस के पापों  
के नीचे की पीड़ी बनें । क्योंकि उन ने एक ही चढ़ावे के १४  
द्वारा उन्हें जो पवित्र किये जाते हैं सदा के लिये सिद्ध  
कर दिया । और पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देता १५  
है क्योंकि उस ने पहिले कहा था कि, प्रभु कहता है कि १६  
जो बाचा मैं उन दिनों के पीछे उन से बांधंगा वह यह  
है मैं अपनी व्यवस्थाओं को उन के मन में डालूंगा और  
उन के हृदयों पर लिखूंगा । (फिर यह कहता है कि) १७  
मैं उन के पापों को और उन के अधर्म के कामों को फिर  
कभी स्मरण न करूंगा । पर जब इन की क्षमा हो गई १८  
तो फिर पाप बलि नहीं होने का ॥

- सो हे भाइयो जब कि हमें यीशु के लोहू के द्वारा १९  
उस नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने  
का हियाव हो गया है । जो उस ने परदे अर्थात् अपने २०  
शरीर में से होकर हमारे लिये स्थापन किया है । और २१  
हमारा ऐसा महान् याजक है जो परमेश्वर के घर का  
अधिकारी है । तो आओ हम सच्चं मन और पूरे २२  
विश्वास के साथ और विवेक<sup>२</sup> का दोष दूर करने के लिये  
हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध पानी से  
धुलवाकर समीप जाएं । और अपनी आज्ञा के अंगीकार २३  
को हठता से थामे रहें क्योंकि जिस ने प्रतिज्ञा की है वह  
सच्चा<sup>३</sup> है । और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिये २४  
एक दूसरे की चिन्ता किया करे । और इकट्ठे होना न २५  
छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है पर एक दूसरे को  
समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते  
देखो त्यों त्यों और भी यह किया करो ॥

- क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के पीछे यदि २६  
हम जान बूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिये फिर कोई

(१) मन । या । कांशंस ।

(२) सू० । विश्वासयोग्य ।

(१) मन । या । कांशंस ।

- २७ बलिदान बाकी नहीं । पर दरुड का भयानक बाट जोहना और आज का ज्वलन रह गया जो विरोधियों को भस्म करेगा । जब कि मूसा की व्यवस्था का न माननेवाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोचो कि वह कितने और भी भारी दरुड के योग्य ठहरेगा जिस ने परमेश्वर के पुत्र को पापों से गँदा और वाचा के लोहू को जिस के द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया । क्योंकि हम उसे जानते हैं जिस ने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है मैं ही बदला दूँगा और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा । जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है ॥
- ३२ पर उन पहिले दिनों का स्मरण करो जिन में तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े भ्रमले में स्थिर रहे । कुछ तो यों कि तुम निन्दा और क्रेश सहते हुए तमाशा बने और कुछ यों कि उन के साभी हुए जिन की वैसी ही दशा थी ।
- ३४ क्योंकि तुम क्रौंदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी पत्ति भी आनन्द से छुटने दी यह जान कर कि हमारे पास एक और भी उत्तम और सदा ठहरनेवाली संपत्ति है ।
- ३५ अपना हियाव न छोड़े कि उस का बड़ा बदला है ।
- ३६ क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ । क्योंकि बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि आनेवाला आएगा और देर न करेगा । और मेरा धर्म जन विश्वास से जीता रहेगा और यदि वह पीछे हटे तो मेरा मन उस से प्रसन्न न होगा । पर हम हटनेवाले नहीं कि नाश हो जाएं पर विश्वास करनेवाले हैं कि प्राण बचाएँ ॥

## ११. विश्वास आशा की हुई बातों का निश्चय और अनदेखी बातों

- २ का प्रमाण है । इसी के विषय प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई । विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारे जगत परमेश्वर के वचन के द्वारा रचे गए यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो । विश्वास से हावील ने कैन के से बढ़िया बलिदान परमेश्वर के लिये चढ़ाया और उसी के द्वारा उस के धर्म होने की गवाही दी गई क्योंकि परमेश्वर ने उस की भेंटों के विषय गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक शर्तें करता है । विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था क्योंकि उस के उठाए जाने से पहिले उस की यह गवाही दी गई थी कि उस ने परमेश्वर को प्रसन्न किया । और विश्वास बिना

उसे प्रसन्न करना अनहोना है क्योंकि परमेश्वर के पास आनेवाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजनेवालों को बदला देता है । विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय जो उस समय देख न पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिये जहाज बनाया और उस के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है । विश्वास से इब्राहीम जब बुलाया गया तो आशा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेनेवाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ तौभी निकल गया । विश्वास से उस ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराए देश में परदेशी रह कर इसहाक और याकूब समेत जो उस के साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया । क्योंकि वह उस नेववाले नगर की बाट जोहता था जिन का रचनेवाला और बनानेवाला परमेश्वर है । विश्वास से साराह ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई क्योंकि उस ने प्रतिज्ञा करनेवाले को सच्चा जाना था । इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर की बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ ॥

ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न पाईं पर उन्हें दूर से देखकर नमस्कार किया और मान लिया कि हम पृथिवी पर परदेशी और ऊपरी हैं । जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रगट करते हैं कि स्वदेश का खोज में हैं । और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उस की सुध करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था । पर वे एक उत्तम अर्थात् स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं इसी लिये परमेश्वर उन का परमेश्वर कहलाने में उन से नहीं लजाता सो उस ने उन के लिये एक नगर तैयार किया है ॥

विश्वास से इब्राहीम ने जब परखा जाता था तो इसहाक का चढ़ाया और जिस ने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिस से यह कहा गया था कि इसहाक में तेरा वंश कहलाएगा वह अपने एकलौते का चढ़ाने लगा । क्योंकि उस ने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुएओं में से जिलाए सो उन्हीं में से दृष्टान्त की रीति पर वह उसे फिर मिला । विश्वास से इसहाक ने याकूब और एसा को आनेवाली बातों के विषय आशिष

(१) या । स्थिर रहनेवाले ।

(२) य० । विश्वासयोग्य ।

२१ दी । विश्वास से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशिष दी और अपनी लाठी के  
 २२ सिरे पर सहारा लेकर प्रणाम किया । विश्वास से यूसुफ ने जब वह मरने पर था इस्राईल के सन्तान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय  
 २३ आशा दी । विश्वास से मूसा के माता पिता ने उस को उत्पन्न होने के पीछे तीन महीने तक छिपा रखा क्योंकि  
 २४ उन्होंने ने देखा कि बालक सुन्दर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे । विश्वास से मूसा सयाना होकर  
 २५ फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मुकर गया । इसलिये कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से  
 २६ परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और अच्छा लगा । और मसीह के कारण निन्दित होना मिसर  
 २७ में भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उस की आखें फल पाने की ओर लगी थीं । विश्वास से राजा के क्रोध  
 २८ से न डर कर उस ने मिसर को छोड़ दिया क्योंकि वह अनदेखे का मानो देखता हुआ दृढ़ रहा । विश्वास से  
 २९ उस ने फसल और लोहू छिड़कने की विधि मानी जिस से कि पहिलौटों का नाश करनेवाला इस्राईलियों<sup>१</sup> पर हाथ  
 ३० न डाले । विश्वास से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से और जब मस्त्रियों ने  
 ३१ वैसा ही करना चाहा तो डूब मरे । विश्वास से जब वे यरीहो की शहरपनाह के आस पास सात दिन तक  
 ३२ घूम चुके तो वह गिर पड़ी । विश्वास से राहाब वेश्या आज्ञा न माननेवालों<sup>२</sup> के साथ नाश न हुई इसलिये कि  
 ३३ उस ने मेदियों को कुशल से रक्खा । अब और क्या कहूं । क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदेन का और बाराक और  
 ३४ शिमशोन का और यिफतह का और दाऊद और समवील का और नवियों का वर्णन करूं । इन्होंने विश्वास के  
 ३५ द्वारा राज्य जीते धर्म के काम किए प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं पाईं सिंहीं के मुंह बन्द किए । आग की जलन  
 ३६ का ठंडा किया तलवार की धार से बच निकले निर्बलता में बलवन्त हुए लड़ाई में वीर निकले विदेशियों की  
 ३७ फौजों को मार भगाया । स्त्रियों ने अपने मरे हुआओं को फिर जीविते पाया । कितने तो मार खाते खाते मर गए  
 और छुटकारा न चाहा इसलिये कि उत्तम पुनरुत्थान<sup>३</sup> के भागी हों । कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने फिर कोड़े खाने  
 बरन बांधे जाने और क्रौंद में पड़ने के द्वारा परखे गए । पत्थरवाह किए गए आरे से चीरे गए उन की परीक्षा की गई तलवार से मारे गए वे कंगाली और क्रेश और दुख

(१) यू० । उन । (२) या । अविश्वासियों ।

(३) या । मृतकोत्थान ।

उठाते हुए मेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे । और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथिवी की दरारों में भरमते फिरे । संसार उन के योग्य न था । और विश्वास के द्वारा इन सब के विषय अच्छी गवाही दी गई तौभा उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली । क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिये एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे ॥

## १२. इस कारण जब कि हम गवाहों की

ऐसी भारी घटा से घिरे हुए हैं तो आओ हर एक रोकनेवाली वस्तु और उलझानेवाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिस में हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें । और विश्वास के कर्त्ता और सिद्ध करनेवाले यीशु की ओर ताकते रहें जिस ने उस आनन्द के लिये जो उस के आगे धरा था लज्जा की कुछ चिन्ता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दहिने जा बैठा । तो उस पर ध्यान करो जिस ने अपने विरोध में पापियों का इतना विवाद सह लिया ऐसा न हो कि मन ढीले पड़ जाने से हियाव छोड़ दे । तुम ने पाप से लड़ते हुए उस से ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि लोहू बहा हो । और तुम उस उपदेश को जो तुम को पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना का हलकी बात न जान और जब वह तुम्हें घुड़के तो हियाव न छोड़ । क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उस की ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उस को कोड़े भी लगाता है । तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो । परमेश्वर तुम्हें पुत्र जान कर तुम्हारे साथ बरताव करता है वह कौन सा पुत्र है जिस की ताड़ना पिता नहीं करता । यदि वह ताड़ना जिस के भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के सन्तान ठहरे । फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न होकर जीते रहें । वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिये ताड़ना करते थे पर यह तो हमारे लाभ के लिये करता है कि हम भी उस की पवित्रता के भागी हो जाएं । और हर प्रकार की ताड़ना जब होती है तो आनन्द का नहीं पर शोक ही की बात देख पड़ती है तौभा जो उस को सहते सहते पक्के हो गए हैं पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का फल मिलता है । इसलिये ढीले हाथों और निबल घुटनों को सीधे करो । और अपने पांवों के लिये सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए ॥

(४) या । लंगड़े की हड्डी उखड़ न जाए ।

१४ सब से मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी  
 १५ हो जिस बिना कोई प्रभु को न देखेगा । और ध्यान से  
 देखते रहो ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह बिना  
 रह जाए या कोई कड़वा जड़ फूटकर कष्ट वे और उस के  
 १६ द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं । ऐसा न हो कि  
 कोई जन व्यभिचारी या एसौ की नाई अभर्मी हो जिस  
 ने एक बार के भोजन के बदले अग्ने पहिलौठे होने का  
 १७ पद बेच डाला । तुम जानते तो हो कि इस के पीछे जब  
 उस ने आशिष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया सो  
 उस के आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का  
 अवसर न मिला ॥

१८ तुम तो उस पहाड़ के पास जो छूआ जाता  
 और आग से जलता था और काली घटा और अंधेरा  
 १९ और आंधी के पास, और तुरही की ध्वनि और  
 बोलनेवाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिस के  
 सुननेवालों ने बिनती की कि हम से और बातें न की  
 २० जाए । क्योंकि वे उस आशा को न सह सकते थे  
 कि यदि पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया  
 २१ जाए । और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने  
 कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूँ । पर तुम सियोन  
 २२ के पहाड़ के पास और जीविते परमेश्वर के नगर स्वर्गांश  
 २३ यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन  
 पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिन के  
 नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्यायी परमेश्वर  
 के पास और सिद्ध किये हुए धर्मियों के आत्माओं,  
 २४ और नई वाचा के बिचवई यीशु और छिड़काव के उस  
 लोहू के पास आए हा जो हावील के लोहू से अच्छी  
 २५ बातें बोलता है । चौकस रहो और उस कहनेवाले से  
 मुंह न फेरो क्योंकि वे लोग ज. पृथिवी पर के चिंतावनी  
 करनेवाले से मुंह मोड़ कर न बच सकें तो हम स्वर्ग  
 पर के चिंतावनी करनेवाले से मुंह मोड़कर क्योंकर बच  
 २६ सकेंगे । उस समय तो उस के शब्द ने पृथिवी को डुलाया  
 पर अब उस ने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं  
 केवल पृथिवी को नहीं बरन आकाश को भी डुला दूंगा ।  
 २७ इस बात से कि एक बार फिर यही प्रगट होता है कि जो  
 वस्तु डुलाई जाती है वे सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण  
 टल जाएंगी जिस से कि जो वस्तुएं डुलाई नहीं जाती वे  
 २८ बनी रहें । इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो डोलने  
 का नहीं उस अनुग्रह के हाथ से न जाने दें जिस के द्वारा  
 हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी सेवा करें  
 २९ जो उसे भाए । क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करनेवाली  
 आग है ॥

### १३. भाईचारे की प्रीति बनी रहे ।

पहुनई करना न भूलना २  
 क्योंकि इस के द्वारा कितनों ने स्वर्गदूतों की पहुनई बिन  
 जाने की है । क्रैदियों की ऐसी सुध लो कि मानों उन के ३  
 साथ तुम भी क्रैद हो और जिन के साथ बुरा बरताव  
 किया जाता है उन की भी यह समझकर सुध लिया करो  
 कि हमारी भी देह है । विवाह सब में आदर की बात ४  
 समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे क्योंकि परमेश्वर  
 व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा ।  
 तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है ५  
 उसी पर सन्तोष करो क्योंकि उस ने आप ही कहा है मैं  
 तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा । इस- ६  
 लिये हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक  
 है मैं न डरूंगा मनुष्य मेरा क्या करेगा ॥

जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने ने तुम्हें परमेश्वर का ७  
 वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उन के  
 चालचलन का अन्त देखकर उन के विश्वास का अनुकरण  
 करो । यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग ८  
 एकसा है । नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न ९  
 भ्रमाए जाओ क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ रहना भला  
 है और न कि उन खाने की वस्तुओं से जिन से काम  
 रखनेवालों को कुछ लाभ न हुआ । हमारी एक ऐसी १०  
 बेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को  
 नहीं जो तंबू की सेवा करने हैं । क्योंकि जिन पशुओं ११  
 का लोहू महायाजक पाप बलि के लिये पवित्र स्थान में  
 ले जाता है उन की देह छावनी के बाहर जलाई जाती  
 है । इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लोहू के १२  
 द्वारा पवित्र करने के लिये पापक के बाहर दुख उठाया ।  
 सो आओ उस की निन्दा अपने ऊपर लिए हुए छावनी १३  
 के बाहर उस के पास निकल चलें । क्योंकि यहां हमारा १४  
 कोई बना रहनेवाला नगर नहीं बरन हम उस होनदारे  
 नगर की खोज में हैं । इसलिये हम उस के द्वारा स्तुति- १५  
 रूपी बलिदान अर्थात् उन होठों का फल जो उस के नाम  
 का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिये सदा चढाया  
 करें । पर भलाई करना और उदारता न भूलो क्योंकि १६  
 परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है । अपने अगुवों १७  
 की मानो और उन के आधीन रहो क्योंकि वे उन  
 की नाई तुम्हारे प्राणों के लिये जाते रहते जिन्हें  
 लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनन्द से करें  
 न कि ठंडी सांस ले लेकर क्योंकि इस से तुम्हें कुछ  
 लाभ नहीं ॥

हमारे लिये प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा १८

है कि हमारा विवेक सीधा है और हम सब बातों में  
१९ अच्छी चाल चलना चाहते हैं । और इस के करने के  
लिये मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं जल्द तुम से  
भेंट फिर कर सकूँ ॥

२० अब शान्तिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो  
मेड़ों का महान् रखवाला है सनातन वाचा के लोहू के  
२१ गुण से मरे हुएों में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक अच्छी  
बात में सिद्ध करे कि उस की इच्छा पूरी करो और जो कुछ

(१) मन । या । कांशम ।

उस को भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न  
करे जिस की बड़ाई युगानुयुग होती रहे । आमीन ॥

हे भाइयो मैं तुम से बिनती करता हूँ कि इन उप- २२  
देश की बातों को सह लेओ क्योंकि मैं ने तुम्हें बहुत  
थोड़े में लिखा है । यह जानो कि तीमुथियुस हमारा भाई २३  
छूट गया और यदि वह जल्द आ जाएगा तो मैं उस के  
साथ तुम से भेंट करूंगा ॥

अपने सब अगुवों और सब पवित्र लोगों से नमस्कार २४  
कहो । इतालियावालों का तुम्हें नमस्कार ॥

तुम सब पर अनुग्रह होता रहे । आमीन ॥ २५

## याकूब की पत्री ।

१. परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास  
याकूब की ओर से उन बारहों गोत्रों  
को जो तिच्छर विच्छर रहते हैं नमस्कार ॥

२ हे मेरे भाइयो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं  
३ में पड़ो, तो इस को पूरे आनन्द की बात समझो  
यह जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से  
४ धीरज उत्पन्न होता है । पर धीरज को अपना पूरा काम  
करने दो कि तुम सिद्ध और पूरे हो और तुम में किसी  
बात की घटी न रहे ॥

५ पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो  
तो परमेश्वर से मांगो जो उलाहने दिये बिना सब को  
६ उदारता से देता है और उस को दी जाएगी । पर  
विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे क्योंकि जो संदेह  
करता है वह समुद्र के हिलकारे के समान है जो हवा  
७ से बहता उछलता है । ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे  
८ प्रभु से कुछ मिलेगा । वह दुश्चिन्ता और अपने सारे  
चालचलन में चंचल है ॥

९ दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमण्ड करे,  
१० और धनवान अपने नीचे पद पर क्योंकि घास के फूल  
११ की नाई वह जाता रहेगा । क्योंकि सूरज निकलते ही  
कड़ी धूप पड़ती और घास को सुखा देती और उस का  
फूल झड़ जाता है और उस की शोभा जाती रहती है  
वैसे ही धनवान भी अपने मार्ग पर मुरझाएगा ॥

१२ धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है,  
क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा  
जिस की प्रतिष्ठा प्रभु ने अपने प्रेम करनेवालों को दी

है । जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि १३  
मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है क्योंकि न तो  
बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती और न वह  
किसी की परीक्षा आप करता है । परन्तु हर कोई अपने १४  
ही अभिलाष से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में  
पड़ता है । फिर अभिलाष गर्भवती होकर पाप को १५  
जनता है और पाप जब बढ़ चुका तो मृत्यु उत्पन्न  
करता है । हे मेरे प्यारे भाइयो धोखा न खाओ । १६  
हर एक अच्छा दान और हर एक उत्तम बर ऊपर से है १७  
और ज्योतियों के पिता की ओर से उतरता है जिस में न  
अदल बदल न फेर फार की छाया है । उस ने अपनी १८  
ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया  
इसलिये कि हम उस की सिरजी हुई वस्तुओं के मानो  
पहिले फल हों ॥

हे मेरे प्यारे भाइयो यह बात तुम जानते हो इस- १९  
लिये हर एक मनुष्य सुनने के लिये तैयार पर बोलने में  
धीरा और क्रोध में धीमा हो । क्योंकि मनुष्य का क्रोध २०  
परमेश्वर के धर्म को नहीं निबाहता है । इसलिये २१  
सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके  
अपने मनो में उस लगाए हुए वचन को जो तुम्हारे  
प्राणों का उद्धार कर सकता है नम्रता से ग्रहण करो ।  
वचन पर चलनेवाले बनो और केवल ऐसे सुननेवाले २२  
नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं । क्योंकि यदि कोई २३  
वचन का सुननेवाला हो और उस पर चलनेवाला न हो  
तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह  
दर्पण में देखता है । क्योंकि वह अपने आप को देखता २४



और चला जाता और तुरन्त भूल जाता है कि मैं कैसा  
 २५ था । पर जो जन स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को ध्यान  
 से देखता रहता है वह अपने काम में इसलिये धन्य  
 होता कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसाही काम करता है ।  
 २६ यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ  
 पर बाग न लगाए पर अपने मन को धोखा दे तो इस  
 २७ की भक्ति व्यर्थ है । परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और  
 निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश  
 में उन की सुध लें और अपने आप को संसार से  
 निष्कलंक रखें ॥

२. हे मेरे भाइयो हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु  
 मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ  
 २ न हो । क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और  
 सुन्दर वस्त्र पहिने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक  
 ३ कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहिने हुए आए । और  
 तुम उस सुन्दर वस्त्रवाले का मुंह देखकर कहो तू यहां  
 अच्छी जगह बैठ और उस कंगाल से कहो तू यहां खड़ा  
 ४ रह या मेरे पांवों की पीढ़ी के पास बैठ । तो क्या तुम ने  
 अपने अपने मन में भेद न माना और कुविचार से  
 ५ न्याय करनेवाले न ठहरे । हे मेरे प्यारे भाइयो सुनो  
 क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना  
 कि विश्वास में धनी और उस राज्य के वारिस हो जिस  
 की उस ने उन्हें जो उस से प्रेम रखते हैं प्रतिज्ञा की है ।  
 ६ पर तुम ने उस कंगाल का अपमान किया । क्या घनी  
 लोग तुम पर अंधे नहीं करते और क्या वे ही तुम्हें  
 ७ कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते । क्या वे  
 उस उत्तम नाम की जिस से तुम कहलाए जाते हो  
 ८ निन्दा नहीं करते । पर यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस  
 वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान  
 प्रेम रख सचमुच इस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो  
 ९ तो अच्छा करते हो । पर यदि तुम पक्षपात करते हो  
 तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती  
 १० है । क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था को मान ले पर एक  
 ११ ही बात में चूके वह सब बातों में दोषी ठहरा । इस  
 लिये कि जिस ने कहा व्यभिचार न करना उस ने यह  
 भी कहा कि खून न करना सो यदि तू ने व्यभिचार न  
 किया पर खून किया तौभी तू व्यवस्था का अपराधी हो  
 १२ चुका । तुम उन लोगों की नाई बोलो और काम भी  
 करो जिन का न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार  
 १३ होगा । क्योंकि जिस ने दया न की उस का न्याय बिना  
 दया के होगा । दया न्याय पर जय जयकार करती है ॥

(१) यू० । घमण्ड ।

हे मेरे भाइयो यदि कोई कहे मुझे विश्वास है १४  
 पर कर्म न करता हो तो क्या लाभ है । क्या ऐसा  
 विश्वास उस का उद्धार कर सकता है । यदि कोई भाई १५  
 बहिन नंगे उधाड़े हों और उन्हें हर दिन के भोजन की  
 घटी हो । और तुम में से कोई उन से कहे कुशल से १६  
 जाओ तुम्हें जाड़ा न लगे<sup>२</sup> तुम तृप्त रहो पर जो वस्तु  
 देह के लिये अवश्य हैं उन्हें न दे तो क्या लाभ । वैसे १७  
 ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो आप ही  
 मरा हुआ है । पर कोई कहेगा तुम्हें विश्वास है १८  
 और मैं कर्म करता हूं तू अपना विश्वास मुझे कर्म  
 बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के  
 द्वारा तुम्हें दिखाऊंगा । तुम्हें विश्वास है कि एक ही १९  
 परमेश्वर है । तू अच्छा करता है । दुष्टात्मा भी  
 विश्वास रखते और थरथरते हैं । पर हे निकम्मे २०  
 मनुष्य क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना  
 विश्वास अकारण है । जब हमारे पिता इब्राहीम ने २१  
 अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह  
 कर्मों से धर्मी न ठहरा था । सो तू देखना है कि २२  
 विश्वास उस के कामों के साथ साथ कार्य करता था  
 और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ । और पवित्र शास्त्र २३  
 का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहीम ने परमेश्वर की  
 प्रतीति की और यह उस के लिये धर्म गिना गया और  
 वह परमेश्वर का मित्र कहलाया । सो तुम देखते हो कि २४  
 मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बरन कर्मों से भी धर्मी  
 ठहरता है । वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उस ने दूतों २५  
 को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से बिदा किया  
 तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी । निदान जैसे देह २६  
 आत्मा बिना मरा हुआ है वैसे ही विश्वास भी कर्म  
 बिना मरा हुआ है ॥

३. हे मेरे भाइयो तुम में से बहुत उपदेशक न  
 बनें क्योंकि जानते हो कि हम  
 उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे । इसलिये कि हम २  
 सब बहुत बार चूकते हैं । यदि कोई वचन में नहीं  
 चूकता तो वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी  
 लगाम लगा सकता है । जब हम घोड़ों के मुंह में ३  
 इसलिये लगाम लगाते हैं कि वे हमारी मानें तो हम  
 उन की सारी देह फेर सकते हैं । देखो जहाज़ भी जो ४  
 ऐसे बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं  
 पर छोटी ही पतवार से बिधर मांभी का मन चाहता हो  
 घुमाए जाते हैं । वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग ५

(१) यू० । गरम रही ।

- हे और बड़ी गलफटाकी करती है । देखो मोड़ी सी आग  
 ६ कैसे बड़े वन को फूंक देती है । जीम भी एक आग है  
 जीम हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी  
 देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगाती  
 ७ है और नरक की आग से जलती रहती है । और वन-  
 पशुओं पक्षियों और रेंगनेवाले जन्तुओं और जलचरों की  
 भी हर एक जाति मनुष्य जाति के वश में हो जाती है  
 ८ और हो गई है । पर जीम को मनुष्यों में से कोई वश  
 में नहीं कर सकता वह एक ऐसी बुराई है जो रुकती  
 ९ नहीं वह मारू विष से भरी हुई है । इसी से हम प्रभु  
 और पिता का धन्यवाद करते हैं और इसी से मनुष्यों  
 को जो परमेश्वर की समानता में बने हैं साप देते हैं ।  
 १० एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं ।  
 ११ हे मेरे भाइयो ऐसा न होना चाहिए । क्या सोते के एक  
 १२ ही मुंह से मीठा और खारा दोनों बहते हैं । हे मेरे  
 भाइयो क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता  
 में अंजीर लग सकती है । वैसे ही खारे सोते से मीठा  
 पानी नहीं निकल सकता ॥  
 १३ तुम में ज्ञानवान् और समझदार कौन है वह  
 अपने कामों को अच्छे चालचलन से उस नम्रता सहित  
 १४ प्रगट करे जो ज्ञान से होता है । पर यदि तुम अपने अपने  
 मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के  
 १५ विरोध में घमण्ड न करना और न झूठ बोलना । यह  
 ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है बरन सांसारिक  
 १६ और शारीरिक और शैतानी है । इसलिये कि जहां डाह  
 और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का बुरा  
 १७ काम होता है । पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पहिले तो  
 वह पवित्र फिर मिलनसार कोमल और मृदुभाव और  
 दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और  
 १८ कपट रहित है । और मिलाप करनेवालों के लिये धर्म  
 का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है ॥

#### ४. तुम में लड़ाई कहां से और भगड़े कहां

- से क्या उन सुख विलासों से नहीं  
 २ जो तुम्हारे अंगों में लड़ते हैं । तुम लालसा रखते हो  
 और तुम्हें मिलता नहीं तुम खून और डाह करते हो  
 और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तुम भगड़ा और लड़ाई  
 करते हो तुम्हें इसलिये नहीं मिलता कि मांगते नहीं ।  
 ३ तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिये कि बुरे मतलब  
 ४ से मांगते हो कि अपने सुख विलास में उड़ा दो । हे  
 व्यभिचारिणियो क्या तुम नहीं जानती कि संसार से  
 मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है । सो जो कोई

संसार का मित्र होना चाहता है वह परमेश्वर का बैरी  
 ठहरता है । क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र ५  
 व्यर्थ कहता है । जो आत्मा उस ने हम में बसाया है  
 क्या वह ऐसी लालसा करता है जिस से डाह हो । पर ६  
 वह और भी अनुग्रह देता है इस कारण यह आया है  
 कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों ७  
 पर अनुग्रह करता है । इसलिये परमेश्वर के अधीन ७  
 होओ शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से  
 भाग जाएगा । परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे ८  
 निकट आएगा । हे पापियो अपने हाथ शुद्ध करो और  
 हे दुश्चित्त लोगो अपने मन पवित्र करो । दुखी होओ ९  
 और शोक करो और रोओ तुम्हारी हंसी शोक से और  
 तुम्हारा आनन्द उदासी से बदल जाए । प्रभु के सामने १०  
 दीन बनो तो वह तुम्हें बढ़ाएगा ॥

हे भाइयो एक दूसरे की बदनामी न करो जो ११  
 अपने भाई की बदनामी करता है ध्या भाई पर दोष  
 लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और  
 व्यवस्था पर दोष लगाता है और यदि तू व्यवस्था पर  
 दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलनेवाला नहीं पर  
 उस पर हाकिम ठहरा । व्यवस्था देनेवाला और हाकिम १२  
 तो एक ही है जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है  
 तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है ॥

अब आओ तुम जो कहते हो कि आज या कल १३  
 हम उस नगर में जाकर वहां एक बरस बिताएंगे और  
 लेन देन कर कमाएंगे । और यह नहीं जानते कि कल १४  
 क्या होगा । तुम्हारा जीवन है क्या । तुम तो मानो भाफ  
 हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर जाती रहती है ।  
 इस के बदले तुम्हें यह कहना चाहिये कि प्रभु चाहे तो १५  
 हम जीते रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे । पर १६  
 अब तुम अपनी गलफटाकियों पर घमण्ड करते हो ऐसा  
 सारा घमण्ड बुरा है । सो जो कोई भलाई करना जानता १७  
 और नहीं करता उस के लिये यह पाप है ॥

#### ५. अब आओ हे धनवानो अपने आने- वाले क्लेशों पर चिन्लाकर रोओ ।

तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे कपड़े कीड़े खा २  
 गए । तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई और वह ३  
 काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा  
 मांस खा जाएगी । तुम ने पिछले समय में धन बटोरा  
 है । देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उन की ४  
 मजदूरी जो तुम ने धोखा देके रख छोड़ी चिन्ताती है और

- लवनेवालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक  
 ५ पहुंच गई है। तुम पृथिवी पर सुख विलास में रहे तुम  
 ने जैसे वध के दिन ही में अग्ने मन को पाला पोसा  
 ६ है। तुम ने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला वह  
 तुम्हारा सामना नहीं करता ॥
- ७ सो हे भाइयो प्रभु के आने तक धीरज धरो  
 देखो गृहस्थ पृथिवी के बहुमोल फल की आस रखता  
 हुआ पहिली और पिछली वर्षा होने तक धीरज धरता  
 ८ है। सो तुम भी धीरज धरो और अपने मन को स्थिर  
 ९ करो क्योंकि प्रभु का आना निकट है। हे भाइयो एक  
 दूसरे पर न कुड़कुड़ाओ कि तुम दोषी न ठहरो देखो  
 १० हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयो जिन नवियों ने  
 प्रभु के नाम से बातें कीं उन्हें दुख उठाने और धीरज  
 ११ धरने का नमूना समझो। देखो हम धीरज धरनेवालों  
 को धन्य कहते हैं। तुम ने ऐयूब के धीरज के विषय  
 तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उस का फल  
 हुआ उसे भी देखा है कि प्रभु बहुत तरस खाता और  
 दया करता है ॥
- १२ पर हे मेरे भाइयो सब से बढ़कर बात यह है कि  
 किरिया न खाना न स्वर्ग की न पृथिवी की न किसी  
 और वस्तु की पर तुम्हारी हां की हां और नहीं की नहीं  
 हो कि तुम दोषी न ठहरो ॥

क्या तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे १३  
 क्या कोई आनन्दित है तो वह भजन गाए। क्या तुम १४  
 में कोई बीमार है तो मण्डली के प्राचीनों<sup>१</sup> को बुलाए  
 और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उस के  
 लिये प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना बीमार को १५  
 बचाएगी और प्रभु उस को उठा खड़ा करेगा और यदि  
 उस ने पाप भी किये हों तो उन की भी क्षमा हो  
 जाएगी। सो तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने १६  
 अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिये प्रार्थना  
 करो जिस से चगे हो जाओ धर्मी जन की प्रार्थना के  
 प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है ॥ एलियाह भी तो १७  
 हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उस ने  
 गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेंह न बरसे और साढ़े  
 तीन बरस तक भूमि पर मेंह न बरसा। फिर उस ने १८  
 प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फल-  
 वन्त हुई ॥

हे मेरे भाइयो यदि तुम में कोई सत्य से भटक १९  
 जाए और कोई उस को फेर लाए। तो जान ले कि जो २०  
 कोई किसी पापी को उस के भटकने से फेर लाएगा वह  
 एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और बहुतेरे पापों को  
 ढांपेगा ॥

(१) या। प्रसबुतियों।

## पतरस की पहिली पत्री ।

१. पतरस की ओर से जो यीशु मसीह  
 का प्रेरित है उन परदेशियों के  
 नाम जो पुन्तुस गलतिया कपडुकिया आसिया और  
 २ बिथुनिया में तिच्छर बिच्छर होके रहते हैं, और परमेश्वर  
 पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने  
 के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लोहू के छिड़के  
 जाने के लिये चुने गए हैं ॥
- तुम्हें बहुतायत से अनुग्रह और शान्ति मिलती  
 रहे ॥
- ३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का  
 धन्यवाद हो जिस ने यीशु मसीह के मरे हुआओं में से जी  
 उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के  
 ४ लिये नया जन्म दिया, अर्थात् एक अविनाशी और निर्मल

और अजर मीरास के लिये, जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में ५  
 रक्खी है जिन की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास  
 के द्वारा उस उद्धार के लिये जो आनेवाले समय में प्रगट  
 होनेवाली है की जाती है। और इस से तुम मगन होते ६  
 हो यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार  
 की परीक्षाओं के कारण उदास हो। और यह इसलिये ७  
 है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए  
 हुए नाशमान सोने से भी बहुत ही बहुमोल है यीशु  
 मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर  
 का कारण ठहरे। उस से तुम बिन देखे प्रेम रखते हो ८  
 और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे  
 आनन्द में मगन होते हो जो कहने से बाहर और महिमा  
 से भरा है। और अपने विश्वास का फल अर्थात् आत्माओं ९

- १० का उद्धार पाते हो । इस उद्धार के विषय उन नबियों ने बहुत पूछ पाछ और खोज खोज की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय जो तुम पर होने को था नबूवत की ।
- ११ वे यह खोज करते थे कि मसीह का आत्मा जो उन में था पहिले से मतीह के दुखों की और उन के पीछे होनेवाली महिमा की गवाही देता हुआ कौन और कैसा
- १२ समय बताता था । उन पर प्रगट किया गया कि वे अपनी नहीं बरन तुम्हारी सेवा के लिये ये बातें कहा करते थे जो अब तुम्हें उन से जिन्होंने स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सुसमाचार सुनाया मिलीं और इन बातों को स्वर्गदूत ध्यान से देखने की इच्छा रखते हैं ॥
- १३ इस कारण अपने अपने मन की कमर बांधकर और सचेत रह कर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रगट होने पर तुम्हें मिलनेवाला है ।
- १४ आशा माननेवाले बालकों की नाईं अपनी अज्ञानता के
- १५ समय के पुराने अभिलाषों के सदृश न बने । पर जैसा तुम्हारा बुलानेवाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे
- १६ चालचलन में पवित्र बने । क्योंकि लिखा है कि पवित्र
- १७ बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ । और जब कि तुम हे पिता पुकार कर उस से प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षगत हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है तो अपने पर-
- १८ देशी होने का समय भय से बिनाओ । क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चालचलन जो बापटादों से चला आता था उस से तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात्
- १९ नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्क-
- २० लंक मेम्ने अर्थात् मसीह के बहुमोल लोह के द्वारा हुआ । वह तो जगत की उत्पत्ति के पहिले ही से जाना गया था पर अब इस पिछले समय तुम्हारे लिये प्रगट
- २१ हुआ । जो उस के द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिस ने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी
- २२ कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो । सो जब कि तुम ने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनो को पवित्र किया है तो मन
- २३ लगा कर एक दूसरे से बहुत ही प्रेम रखो । क्योंकि तुम ने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरनेवाले वचन के द्वारा नया जन्म
- २४ पाया है । क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाईं और उस की सारी शोभा घास के फूल की नाईं है । घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है । परन्तु प्रभु का वचन सदा ठहरेगा और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था ॥

२. इसलिये सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और गीबत को दूर करके, नये जन्मे बच्चों की नाईं निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो कि उस के द्वारा उद्धार पाने के लिये बढ़ते जाओ । जब कि तुम ने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उस के पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परन्तु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमोल जीविता पत्थर है । तुम भी आप जीविते पत्थरों की नाईं आत्मिक घर बनते जाते हो कि याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को भाते हैं । इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सिव्योन में केने के सिरे का चुना हुआ और बहुमोल पत्थर रखता हूँ और जो उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित न होगा । सो तुम्हारे लिये जो विश्वास करने हो वह बहुमोल है पर जो विश्वास नहीं करते उन के लिये जिस पत्थर को राजों ने निकम्मा ठहराया था वही केने का सिरा हो गया, और ठेस का पत्थर और ठोकर की चटान हुआ है । क्योंकि वे तो वचन को न मान कर ठोकर खाते हैं और इसी के लिये वे ठहराए भी गए थे । पर तुम चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और [परमेश्वर की] निज प्रजा हो इसलिये कि जिस ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उस के गुण प्रगट करो । तुम पहिले तो प्रजा न थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो तुम पर दया न हुई थी पर अब तुम पर दया हुई ॥

हे प्यारों मैं तुम्हारी विनती करता हूँ कि परदेशियों और ऊपरियों की नाईं सांसारिक अभिलाषों से जो आत्मा से लड़ते हैं बचे रहो । अन्य जातियों में तुम्हारा चालचलन भला हो इसलिये कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जाकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपादृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें ॥

प्रभु के लिये मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहे चाहे राजा के कि वह सब पर प्रधान है, चाहे हाकिमों के कि वे कुकर्मियों को दण्ड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिये उस के भेजे हुए हैं । क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बन्द करो । स्वतंत्रों

(१) भजन संहिता । ११८:२२ को देखो । (२) यशायाह ८:१४ को देखो ।

की नाईं चलो पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिये  
 आड़ न बनाओ परन्तु परमेश्वर के दासों की नाईं चलो ।  
 १७ सब का आदर करो भाइयो, से प्रेम रखो परमेश्वर से  
 डरो राजा का आदर करो ॥  
 १८ हे टहलुओ हर प्रकार के भय<sup>१</sup> के साथ अपने  
 स्वामियों के अधीन रहे न केवल भलों और कामलों के  
 १९ पर कुटिलों के भी । क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार  
 करके<sup>२</sup> अन्याय से दुख उठाता हुआ क्रोध सहता है तो  
 २० यह भाता है । क्योंकि यदि तुम ने अपराध करके घूसे  
 खाए और धीरज धरा तो इस में क्या बड़ाई की बात है  
 पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते  
 २१ हो तो यह परमेश्वर को भाता है । और तुम इसी के  
 लिये बुलाए गए हो । क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिये दुख  
 उठा कर तुम्हें एक नमूना छोड़ गया है कि तुम उस की  
 २२ लीक पर चलो । न उस ने पाप किया और न उस के मुंह  
 २३ से छल की बात निकली । वह गाली खाकर गाली न देता  
 या और दुख उठाकर किसी को धमकी न देता या पर  
 अपने आपको धर्म से न्याय करनेवाले के हाथ सौंपता  
 २४ या । वह आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए  
 क्रूस पर चढ़ गया<sup>३</sup> जिस से हम पापों के लिये मर करके  
 धार्मिकता के लिये जीएं और उसी के मार खाने से तुम  
 २५ चंगे हुए । क्योंकि तुम पहिले भटकी हुई मेड़ों की नाईं  
 ये पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्वक्ष<sup>४</sup> के  
 पास फिर आ गए हो ॥

३. हे पत्नियो तुम भी अपने अपने पति के  
 २ अधीन रहे, इसलिये कि यदि इन में से  
 कोई कोई वचन को न मानते हों तौभी तुम्हारा भय<sup>५</sup>  
 सहित पवित्र चालचलन देखकर वचन बिना अपनी  
 ३ अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खींचे जाएं । तुम्हारा  
 सिंगार ऊपरी न हो जैसा बाल गूंथने और सोन के गहने  
 ४ या भांति भांति के कपड़े पहिनना । पर हृदय के गुप्त  
 मनुष्यत्व उस नम्र और शान्त आत्मा के अविनाशी शोभा  
 सहित जो परमेश्वर के निकट बहुमोल है तुम्हारा सिंगार  
 ५ हो । और बीते समय में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर  
 की आज्ञा रखती थीं अपने आप को इसी रीति से  
 संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं ।  
 ६ जैसे साराह इब्राहीम की आज्ञा में रहती और उसे  
 स्वामी कहती थी सो तुम भी यदि भलाई करो और

किसी प्रकार के डरावे से न डरो तो उस की बेटियां  
 ठहरोगी ॥

वैसे ही हे पतियो बुद्धिमानी से उन के साथ जीवन ७  
 बिताओ और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उस का आदर  
 करो यह समझकर कि हम दोनों जीवन के बरदान<sup>६</sup> के  
 वारिस हैं जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रोकी न जाएं ॥

निदान सब के सब एक मन और हमदर्द और ८  
 भाईचारे की प्रीति रखनेवाले और करुणामय और नम्र  
 बनो । बुराई के बदले बुराई न करो और न गाली के ९  
 बदले गाली दो पर इस के पलटे आशिष ही दो क्योंकि  
 तुम आशिष के वारिस होने के लिये बुलाए गए हो ।  
 क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे १०  
 दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से  
 और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे ।  
 वह बुराई को छोड़े और भलाई करे वह मेल को ढूँढ़े ११  
 और उस का पीछा न छोड़े । क्योंकि प्रभु की आज्ञा १२  
 धर्मियों पर लगी रहती है और उस के कान उन की  
 बिनती की ओर लगे हैं परन्तु प्रभु बुराई करनेवालों के  
 विमुख रहता है ॥

और यदि तुम भलाई करने में सरगम रहे तो १३  
 तुम्हारी बुराई करनेवाला कौन है । और यदि तुम धर्म १४  
 के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो पर उन के भय  
 से भय न खाओ और न धबराओ । पर मसीह को प्रभु १५  
 जानकर अपने अपने मन में पवित्र मानो और जो कोई  
 तुम से तुम्हारी आज्ञा के विषय कुछ पूछे तो उसे उत्तर  
 देने के लिये सदा तैयार रहे पर नम्रता और भय के  
 साथ । और सीधा विवेक<sup>७</sup> रखो इसलिये कि जिन बातों १६  
 के विषय तुम्हारी बदनामी होती है उन के विषय  
 वे लज्जित हो जो तुम्हारे मसीही अच्छे चालचलन का  
 अपमान करते हैं । क्योंकि यदि परमेश्वर की यह इच्छा १७  
 हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह  
 बुराई करने के कारण दुख उठाने से अच्छा है । इसलिये १८  
 की मसीह ने भी अर्थात् अधर्मियों के लिये धर्म ने पापों  
 के कारण एक बार दुख उठाया कि हमें परमेश्वर के पास  
 पहुंचाए । वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर  
 आत्मा के भाव से जिलाया गया । उसी में उस ने जाकर  
 कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया । जिन्होंने उस बीते २०  
 समय में न माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज  
 धरकर ठहरा रहा और वह जहाज़ बन रहा था जिस में  
 थोड़े अर्थात् आठ प्राणी पानी के द्वारा बच गए । वपति- २१

(१) या । आदर । (२) यू० । के विवेक या कांशंस से ।

(३) या । उस ने आप क्रूस पर हमारा पापों को अपनी देह पर उठा  
 लिया । (४) या । विशय । (५) या । आदर ।

(६) यू० । अनुग्रह । (७) या । मन । या । कांशंस ।

समा जो इस का दृष्टान्त है और शरीर के मेल का दूर करना नहीं परन्तु परमेश्वर के पास सीधे विवेक<sup>१</sup> का अंगीकार<sup>२</sup> है अब हमें भी यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा बचाता है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दहिने है और स्वर्गदूत और आधिकारी और मामर्थी उस के अधीन किए गए हैं ॥

**४. सो** जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया और जब कि जिस ने

शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया तो तुम भी उस ही मनसा का हथियार बांधो। जिस से आगे को अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलाषों के नहीं बरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताओ।  
 ३ क्योंकि अन्यजातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन बुरे अभिलाषों मतवालयन नीला क्रीड़ा पियकड़पन और बिनित पूर्तिपूजा में जहां तक हम ने  
 ४ पहिले समय बिताया वही बहुत हुआ। इस से वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उन का साथ नहीं  
 ५ देते और इसलिये बुरा भला कहते हैं। पर वे उस को जो जीवितों और मरे हुएों का न्याय करने को तैयार है  
 ६ लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुएों को भी सुसमाचार इसलिये सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उन का न्याय हो पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीते रहें ॥

७ सब बातों का अन्त निकट है इसलिये यमी  
 ८ होकर प्रार्थना के लिये सचेत रहे। और सब से बढ़कर एक दूसरे से बहुत प्रेम रखो क्योंकि प्रेम बहुतेरे पापों को  
 ९ दायता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनई करो।  
 १० जिस को जो बरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भण्डारियों की नाई एक  
 ११ दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का बचन है यदि कोई सेवा करे तो जैसे उस शक्ति से जो परमेश्वर देता है जिस से सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रगट हो। महिमा और पराक्रम युगानुयुग उसी की है। आमीन ॥  
 १२ हे प्यारो जो दुख रूपी आग तुम्हारे परखने के लिये तुम में भड़की है उस से यह समझ कर अचंभा न  
 १३ करना कि कोई अनोखी बात तुम पर बीती है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनन्द करो जिस से उस की महिमा के प्रगट होते समय भी तुम  
 १४ आनन्दित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के

लिये तुम्हारी निन्दा की जाती है तो धन्य हो क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर ठहरता है। तुम में से कोई जन खूनी या चोर या १५ कुकर्मि होने या पराए काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए १६ तो लजित न हो पर इस नाम के लिये परमेश्वर की महिमा करे। क्योंकि वह समय आ पहुँचा है कि १७ पहिले परमेश्वर के लोगों<sup>३</sup> का न्याय किया जाए और जब कि पहिले हमारा हो तो उन का क्या अन्त होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी जन कठिनता से उद्धार १८ पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इस १९ लिये जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अने प्राण को विश्वास योग्य सिरजनहार के हाथ सौंप दें ॥

**५. तुम** में जो प्राचीन<sup>४</sup> हैं मैं उन की नाई प्राचीन<sup>५</sup> और मसीह के दुखों का गवाह

और प्रगट होनेवाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझता हूँ, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच २ है रखवाली करो और यह दबाव से नहीं परन्तु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनन्द से और नीच कमाई के लिये नहीं पर मन लगा कर। और जो लोग तुम्हें सौंपे ३ गए हैं उन पर अधिकार न जताओ बरन झुंड के लिये नमूना बने। और जब प्रधान रखवाला प्रगट हांगा तो तुम्हें ४ महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे जवानो तुम भी प्राचीनों<sup>६</sup> के अधीन रहो बरन तुम ५ सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिये दीनता से कमर बांधे रहो क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परन्तु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिये ६ परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता से रहो जिस से वह तुम्हें समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिन्ता उसी ७ पर डाल दो क्योंकि उस को तुम्हारा सोच है। सचेत हो जागते रहो तुम्हारा विरोधी शैतान<sup>७</sup> गर्जनेवाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाये। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जान कर उस का सामना ९ करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुःख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता १० है जिस ने तुम्हें मसीह में अपनी अनन्त महिमा के लिये बुलाया तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के पीछे आप

(३) यू०। घर। (४) या। प्रिसबुतिर। (५) या। प्रिसबुतिरों।

(६) यू०। इबलीस।

(१) मन या। कांशस। (२) या। निवेदन।

ही तुम्हें सुधारेगा और स्थिर करेगा और बलवन्त  
 ११ करेगा । उसी का पराक्रम युगानुयुग रहे । आमीन ॥  
 १२ मैं ने सिलवानुस के हाथ जिसे मैं विश्वासयोग्य  
 भाई समझता हूँ थोड़ी बातों में लिखकर समझाया  
 और गवाही दी कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है

इसी में बने रहे । बाबिल में तुम्हारी नाई चुनी हुई १३  
 वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं ।  
 प्रेम से चुम्बन ले लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो ॥ १४  
 तुम सब को जो मसीह में हो शान्ति मिलती  
 रहे ॥

## पतरस की दूसरी पत्री ।

१. शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का  
 दास और प्रेरित है उन लोगों के नाम  
 जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्त्ता यीशु मसीह की  
 धार्मिकता से हमारा सा बहुमोल विश्वास प्राप्त किया  
 २ है । परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के  
 द्वारा तुम्हारा अनुग्रह और शान्ति बहुतायत से बढ़ती  
 ३ जाए । यह जानकर कि उस के ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब  
 कुछ जो जीवन और भक्ति से सम्बन्ध रखता है हमें  
 उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिस ने हमें अपनी  
 ४ ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया । जिन के  
 द्वारा उस ने हमें बहुमोल और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं  
 दी हैं इसलिये कि इन के द्वारा तुम उस सड़ाहट से  
 ५ छूटकर जो संसार में बुरे अभिलाष से है ईश्वरीय स्वभाव  
 के भागी हो जाओ । और इसी कारण भी तुम सब प्रकार  
 का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण  
 ६ पर समझ । और समझ पर संयम और संयम पर धीरज  
 ७ और धीरज पर भक्ति । और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति  
 ८ और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ । क्योंकि ये  
 बातें जब तुम में रहें और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे  
 प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न  
 ९ होने देंगी । क्योंकि जिस में ये बातें नहीं वह अधा है  
 और धुन्वला देखता है और अपने पहिले पापों से शुद्ध  
 १० होना भूल गया है । इस कारण हे भाइयों अपने बुलाये  
 जाने और चुन लिये जाने को पक्का करने का भली भाँति  
 यत्न करते जाओ क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर  
 ११ न खाओगे । पर इस रीति से तुम हमारे प्रभु और  
 उद्धारकर्त्ता यीशु मसीह के अनन्त राज्य में बड़े आदर  
 के साथ प्रवेश करने पाओगे ॥  
 १२ इसलिये यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो  
 सत्य वचन तुम्हें मिला है उस में बने रहते हो तौभी मैं

तुम्हें इन बातों की सुध दिलाने को सदा तैयार रहूँगा ।  
 और मैं यह अपने लिये उचित समझता हूँ कि जब तक १३  
 मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुध दिला दिलाकर  
 उभारता रहूँ । क्योंकि जानता हूँ कि मसीह के बताने के १४  
 अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय जल्द आने-  
 वाला है । सो मैं यत्न करूँगा कि मेरे कूच होने के पीछे १५  
 तुम इन बातों का स्मरण सदा कर सको । क्योंकि जब १६  
 हम ने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और  
 आने का समाचार दिया तो चतुराई से गठी हुई कथा-  
 नियों का अनुसरण नहीं किया पर हम ने उस के प्रताप  
 को आप ही देखा । क्योंकि उसे परमेश्वर पिता से आदर १७  
 और महिमा मिली कि प्रतापमय महिमा में से उस को यह  
 शब्द पहुंचा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस से मैं प्रसन्न  
 हूँ । और जब हम उस के साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो १८  
 स्वर्ग से यही शब्द आते सुना । और हमारे पास जो १९  
 नबियों का वचन है वह इस से दृढ़ होता है और तुम  
 अच्छा करते हो जो यह समझ कर उस पर ध्यान करते  
 हो कि वह एक दिया है जो अंधेरी जगह में तब तक  
 चमकता रहेगा जब तक पौ न फटे और मोर का तारा  
 तुम्हारे हृदयों में न चमके । पर पहिले यह जानो कि २०  
 पवित्र शास्त्र की कोई नबूवत किसी के अपने ही विचार  
 से नहीं होती । क्योंकि कोई नबूवत मनुष्य की इच्छा से २१  
 कर्मा नहीं आई पर लोग परमेश्वर की ओर से पवित्र  
 आत्मा के बुलाये बोलते थे ॥

२. पर लोगों में झूठे नबो भी हुए जैसे कि  
 तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो  
 नाश करनेवाले विधर्म को छिप छिप के  
 चलाएंगे और उस स्वामी से जिस ने उन्हें मोल लिया  
 मुकरेंगे और अपना सत्यानाश शीघ्र कराएंगे । और २

बहुतेरे उन की नाईं लुचपन करेंगे जिन के कारण सत्य  
 ३ के मार्ग की निन्दा की जाएगी । और वे लोभ के लिये  
 बातें बनाकर तुम्हें बेच खाएंगे और जो दण्ड की आज्ञा  
 उन पर पहिले से हो चुकी थी उस के आने में कुछ देर  
 ४ नहीं और उन का विनाश ऊँघता नहीं । क्योंकि जब  
 परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया न  
 छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कंधों में डाल दिया कि  
 ५ न्याय के दिन तक रक्खे जाएं । और पहिले संसार को भी  
 न छोड़ा बरन भक्तिहीन संसार पर जल प्रलय भेजकर  
 धर्म के प्रचारक नूह समेत आठ जनों को बचा लिया ।  
 ६ और सवोम और अमोराह के नगरों का ऐसा दंड दिया  
 कि उन्हें भस्म करके सत्यानाश किया कि वे आनेवाले  
 ७ भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिये दृष्टान्त बनें । और  
 धर्मी लूत को जो अधर्मियों के लुचपन के चलन से बहुत  
 ८ दुखी होता था बचाया । क्योंकि वह धर्मी उन के बीच में  
 रहते हुए और उन के अधर्म के कामों को देख देखकर  
 और सुन सुनकर हर दिन अपने सब्चे मन को पीड़ित  
 ९ करता था । तो प्रभु भक्तों को परीक्षा से निकालना और  
 अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना  
 १० जानता है । निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषों के  
 पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते  
 हैं । वे ढीठ और हठी हैं और ऊँचे पदवालों को बुरा  
 ११ भला कहने से नहीं डरते । तौभी स्वर्गदूत जो शाक्त और  
 सामर्थ में उन से बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला  
 १२ कहकर दोष नहीं लगाते । पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही  
 के समान हैं जो पकड़े जाने और नाश होने के लिये  
 उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उन के  
 १३ विषय औरों को बुरा भला कहते हैं और अपनी सड़ा-  
 हट से आप ही सड़ जाएंगे । औरों के बुरा करने के बदले  
 १४ उन्हीं का बुरा होगा । उन्हें दिन दोपहर सुख विलास  
 करना अच्छा लगता है वे कलंक और दोष हैं जब वे  
 तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज  
 १५ करके सुख विलास करते हैं । उन की आँखों में व्यभि-  
 चारिणी बसी हुई है और वे पाप किए बिना नहीं रुक  
 सकते वे चंचल प्राणों को फुसला लेते हैं उन के मन  
 १६ को लोभ करने का अभ्यास हो गया है वे साप के सन्तान  
 १७ हैं । वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बन्धु के  
 पुत्र विलाम के मार्ग पर हो लिये हैं जिस ने अधर्म की  
 १८ मजदूरी को प्रिय जाना । पर उस के अपराध के विषय  
 उलाहना दिया गया यहां तक कि अबेल गदही ने मनुष्य  
 १९ की बेल्ती से उस नबी को उस के बावलेपन से रोका । ये  
 लोग अंधे कूप और आंधी के उड़ाए हुए मेघ हैं उन के

लिये अनन्त अंधकार ठहराया गया है । वे व्यर्थ गल- १८  
 फटाकी की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा  
 उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं जो  
 भटके हुआओं में से निकल ही रहे हैं । वे उन्हें स्वतन्त्र होने १९  
 की प्रतिज्ञा तो देते हैं पर आप ही सड़ाहट के दास हैं क्योंकि  
 जो जिस से हार गया है वह उस का दास बन गया है ।  
 और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान २०  
 के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले  
 और फिर उन में फंसकर हार गए तो उन की पिछली  
 दशा पहिली से भी बुरी हो गई है । क्योंकि धर्म के मार्ग २१  
 का न जानना ही उन के लिये इस से भला होता कि उसे  
 जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौपी  
 गई थी । उन पर यह दृष्टान्त ठीक बैठता है कि कुत्ता २२  
 अपनी छांट की ओर और थोड़े हुई सूअरनी कीचड़ में  
 लोटने के लिये फिर गई ॥

३. हे प्यारो अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री  
 लिखता हूँ और दोनों में सुध दिला-  
 कर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ । कि तुम उन बातों २  
 को जो पवित्र नबियों ने पहिले से कहीं और प्रभु और  
 उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे  
 प्रेरितों के द्वारा दी गई थी । और यह पहिले जान लो ३  
 कि पिछले दिनों में हंसी ठट्टा करनेवाले आएंगे जो अपने  
 ही अभिलाषों के अनुसार चलेंगे । और कहेंगे उस के ४  
 आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई क्योंकि जब से आप दादे सोए  
 हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था ।  
 वे तां जान बूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन ५  
 से आकाश पुराने समय से था और पृथिवी भी जल में  
 से और जल के द्वारा बनी रहती है । इन्हीं के द्वारा उस ६  
 समय का जगत जल में डूबकर नाश हुआ । पर इस ७  
 समय के आकाश और पृथिवी उसी वचन के द्वारा इस-  
 लिये रक्खे हैं कि जलाए जाएं और भक्तिहीन मनुष्यों  
 के न्याय और नाश के दिन तक रक्खे रहेंगे ॥

हे प्यारो यह एक बात तुम से छिपी न रहे कि ८  
 प्रभु के यहां एक दिन हजार बरस के बराबर और हजार  
 बरस एक दिन के बराबर हैं । प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के ९  
 विषय देर नहीं करता जैसा कितने लोग देर समझते  
 हैं पर तुम्हारे विषय धीरज धरता है और नहीं चाहता  
 कि कोई नाश हो बरन यह कि सब को मन फिराव का  
 अवसर मिले । परन्तु प्रभु का दिन चोर की नाईं आएगा १०  
 उस दिन आकाश हड़हड़ाहट से जाता रहेगा और तस्व  
 बहुत ही ताते होकर पिघल जाएंगे और पृथिवी और उस  
 पर के काम जल जाएंगे । सो जब कि ये सब वस्तुएं इस ११



- रीति से पिघलनेवाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन  
 १२ और भक्ति में कैसे मनुष्य होना, और परमेश्वर के उस  
 दिन की बाट किस रीति से जोहना और उस के जल्द  
 आने के लिये यत्न करना चाहिए जिस के कारण आकाश  
 १३ पिघल जाएगा और तत्त्व बहुत ही ताते होकर  
 आकाश और नई पृथिवी की आस देखते हैं जिन में धर्म  
 बास करेगा ॥
- १४ इसलिये हे प्यारो जब कि तुम इन बातों की  
 आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शान्ति से उस के  
 १५ सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। और हमारे प्रभु  
 के धीरज को उद्धार समझो जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस

ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा  
 है। वैसे ही उस ने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों १६  
 की चर्चा की जिन में कितनी बातें ऐसी हैं जिन का  
 समझना कठिन है और अनबढ़ और चंचल लोग उन के  
 मतलब को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई  
 खींच तानकर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। सो १७  
 हे प्यारो तुम लोग इस को पहिले से जानकर चौकस रहो  
 ऐसा न हो कि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी  
 स्थिरता को हाथ से जाने दो। पर हमारे प्रभु और १८  
 उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते  
 जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग १९  
 होती रहे। आमीन ॥

## यूहन्ना की पहिली पत्री ।

१. उस जीवन के वचन के विषय जो आदि से  
 था जिसे हम ने सुना जिसे अपनी आंखों  
 से देखा बरन जिसे हम ने ध्यान से देखा और हाथों से  
 २ छुआ (यह जीवन प्रगट हुआ और हम ने उसे देखा  
 और उस की गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनन्त जीवन  
 का समाचार देने हैं जो पिता के साथ था और हम पर  
 ३ प्रगट हुआ) जो कुछ हम ने देखा और सुना है उस का  
 समाचार तुम्हें भी देते हैं इसलिये कि तुम भी हमारे  
 साथ सहभागी हो और हमारा यह सहभागिता पिता के  
 ४ साथ और उस के पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये  
 बातें हम इसलिये लिखते हैं कि हमारा आनन्द पूरा  
 हो जाए ॥
- ५ जो समाचार हम ने उस से सुना और तुम्हें सुनाते  
 हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उस में कुछ  
 ६ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उस के साथ हमारी  
 सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम भूठे हैं  
 ७ और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि हम जैसा वह  
 ज्योति में है वैसे ही ज्योति में चलें तो एक दूसरे ने सह-  
 भागिता रखते हैं और उस के पुत्र यीशु का लोहू हमें  
 ८ सब पाप से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में  
 कुछ पाप नहीं तो अपने अपराधों को धोखा देते हैं और हम  
 ९ में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह  
 हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध

करने में सच्चा और धर्म है। यदि कहें कि हम ने पाप १०  
 नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उस का वचन  
 हम में नहीं ॥

२. हे मेरे बालको मैं ये बातें तुम्हें इसलिये  
 लिखता हूँ कि तुम पाप न करो और  
 यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक  
 है अर्थात् धार्मिक यीशु मसीह। और वही हमारे पापों २  
 का प्रायश्चित्त है और केवल हमारे नहीं बरन सारे जगत  
 के पापों का भी। यदि हम उस की आज्ञाओं को मानेंगे ३  
 तो इस से जानेंगे कि हम उसे जान गए हैं। कि कोई ४  
 यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उस की  
 आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उस में सत्य ५  
 नहीं। पर जो कोई उस के वचन पर चले उस में सच-  
 सुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हम इसी से जानते  
 हैं कि हम उस में हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उस ६  
 में बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले  
 जैसा वह चलता था ॥

हे प्यारो मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता ७  
 पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है यह  
 पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम ने सुना है। फिर मैं ८  
 तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह तो उस में और

- तुम में सच्ची ठहरती है क्योंकि अंधकार मिटता जाता है
- ९ और सत्य ज्योति अभी चमकती है । जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है
- १० वह अब तक अंधकार ही में है । जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर
- ११ खाने का नहीं । पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है क्योंकि अंधकार ने उस की आँखें अंधी कर दी हैं ॥
- १२ हे बालको मैं तुम्हें इसलिये लिखता हूँ कि उस
- १३ के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए । हे पितरो मैं तुम्हें इसलिये लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो । हे जवानो मैं तुम्हें इसलिये लिखता हूँ कि तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई । हे लड़के मैं ने तुम्हें इसलिये
- १४ लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो । हे पितरो मैं ने तुम्हें इसलिये लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो । हे जवानो मैं ने तुम्हें इसलिये लिखा है कि तुम बलवन्त हो और परमेश्वर का वचन तुम में
- १५ बना रहता है और तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई है । न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो । यदि कोई संसार में प्रेम रखता है तो उस में पिता का
- १६ प्रेम नहीं । क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात् शरीर का अभिलाष और आँखों का अभिलाष और जीविका का घमण्ड वह पिता की ओर से नहीं परन्तु संसार की ओर से है । और संसार और उस का अभिलाष दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा ॥
- १८ हे लड़के यह पिछला समय है और जैसा तुम ने सुना है कि मसीह का विरोधी आनेवाला है उस के अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं इस से
- १९ हम जानते हैं कि यह पिछला समय है । वे निकले तो हम ही में से पर हम में के थे नहीं क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते पर निकल इसलिये गए
- २० कि यह प्रगट हो कि वे सब हम में के नहीं । और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब
- २१ कुछ जानते हो । मैं ने तुम्हें इसलिये नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते पर इसलिये कि उसे जानते हो और इसलिये कि कोई भूठ सत्य की ओर से नहीं ।
- २२ भूठा कौन है केवल वह जो यीशु के मसीह होने से मुकरता है और मसीह का विरोधी वही है जो पिता से और पुत्र से मुकरता है । जो कोई पुत्र से मुकरता है उस के पिता

(१) या तुम सबके सब जानते हो ।

भी नहीं जो पुत्र को मान लेता है उस के पिता भी है । जो कुछ तुम ने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे । २४ जो तुम ने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे । और जिस २५ की उस ने हम से प्रतिज्ञा की वह अनन्त जीवन है । मैं ने ये बातें तुम्हें उन के विषय लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं । और तुम्हारा वह अभिषेक जो उस की ओर से २७ किया गया वह तुम में बना रहता है और तुम्हें इस का प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए पर जैसे उस का वही अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है और सत्य है और भूठा नहीं और जैसा उस ने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उस में बने रहते हो । निदान हे बालको उस में बने २८ रहो कि जब वह प्रगट हो तो हमें दियाव हो और हम उस के आने पर उस के सामने लज्जित न हो । यदि तुम २९ जानते हो कि वह धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उस से जन्मा है ॥

### ३. देखो पिता ने हम से कैसा प्रेम किया है

कि हम परमेश्वर के सन्तान कहलाएँ और हम हैं भी । इस कारण संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसे नहीं पहचाना । हे प्यारो अभी हम परमेश्वर के सन्तान हैं और अब तक यह प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं कि जब वह प्रगट होगा तो हम भी उस के समान होंगे क्योंकि उस को वैसा ही देखेंगे जैसा वह है । और जो कोई उस पर यह आशा रखता वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है । जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है । और तुम जानते हो कि वह इसलिये प्रगट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उस में पाप नहीं । जो कोई उस में बना रहता है वह पाप नहीं करता । जो कोई पाप करता है उस ने न उसे देखा है और न उस को जाना है । हे बालको किसी के भरमाने में न आना जो धर्म के काम करता है वही उस की नाई धर्मी है । जो कोई पाप करता है वह शैतान<sup>२</sup> से है क्योंकि शैतान<sup>२</sup> आरंभ ही से पाप करता आया है । परमेश्वर का पुत्र इसलिये प्रगट हुआ कि शैतान<sup>२</sup> के कामों को नाश करे । जो कोई परमेश्वर से जन्मा वह पाप नहीं करता क्योंकि उस का बीज उस में बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है । इसी से परमेश्वर के सन्तान और शैतान<sup>२</sup> के सन्तान जाने जाते हैं जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं और

(२) यू० । इबलीस ।

- ११ न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता । क्योंकि जो समाचार तुम ने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक  
 १२ दूसरे से प्रेम रखें । और कैन के समान न बनें जो उस दुष्ट से या और जिस ने अपने भाई को घात किया । और उसे किस कारण घात किया । इस कारण कि उस के काम बुरे थे और उस के भाई के काम धर्म के थे ॥
- १३ हे भाइयो यदि संसार तुम से बैर करता है तो अचंभा  
 १४ न करना । हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि भाइयों से प्रेम रखते हैं । जो  
 १५ प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है । जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह खूनी है और तुम जानते हो कि किसी खूनी में अनन्त जीवन नहीं रहता ।  
 १६ हम ने प्रेम इसी से जाना कि उस ने हमारे लिये अपना प्राण दे दिया और हमें भी भाइयों के लिये प्राण देना चाहिए । पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उस में परमेश्वर का प्रेम क्योंकर बना रह सकता है । हे बालको हम वचन और जीभ ही से  
 १९ नहीं पर काम और सत्य से प्रेम करें । इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उस के विषय हम उस के सामने अपने अपने  
 २० मन को ढाढ़स दे सकेंगे । क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है । हे प्यारो यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने  
 २२ हियाव होता है । और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उस से मिलता है क्योंकि हम उस की आज्ञाओं को मानते  
 २३ हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं । और उस की आज्ञा यह है कि हम उस के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उस ने हमें आज्ञा दी उस के  
 २४ अनुसार आपस में प्रेम रखें । और जो उस की आज्ञाओं को मानता है वह इस में और यह उस में बना रहता है और इसी से अर्थात् उस आत्मा से जो उस ने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है ॥

४. हे प्यारो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं क्योंकि बहुत से भूटे  
 १ नबी जगत में निकल खड़े हुए हैं । परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह  
 ३ परमेश्वर की ओर से है । और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानता वह परमेश्वर की ओर से नहीं और यही तो मसीह के विरोधी का आत्मा है जिस की चरचा तुम सुन

सुके हो कि वह आनेवाला है और अब भी जगत में है । हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुम ने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उस से जो संसार में है बड़ा है । वे संसार के हैं इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उन की सुनता है । हम परमेश्वर के हैं जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है जो परमेश्वर का नहीं वह हमारी नहीं सुनता इसी से हम सत्य का आत्मा और भ्रम का आत्मा पहचान लेते हैं ॥

हे प्यारो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है । जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है । जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है वह इस से प्रगट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उस के द्वारा जीवन पाएं । प्रेम इस में नहीं कि हम ने परमेश्वर से प्रेम किया पर इस में है कि उस ने हम से प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिये अपने पुत्र को भेजा । हे प्यारो जब परमेश्वर ने हम से ऐसा प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए । परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उस का प्रेम हम में सिद्ध हो गया है । इसी से हम जानते हैं कि हम उस में बने रहते हैं और वह हम में क्योंकि उस ने अपने आत्मा में से हमें दिया है । और हम ने देख लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है । जो कोई मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है परमेश्वर उस में बना रहता है और वह परमेश्वर में । और जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है उस को हम जान गए और हमें उस की प्रतीति है । परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उस में बना रहता है । इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं । प्रेम में भय नहीं होता परन्तु पूरा प्रेम भय को दूर कर देता है क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ । हम इस लिये प्रेम करते हैं कि पहिले उस ने हम से प्रेम किया । यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह भूटा है क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उस ने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से जिसे उस ने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता । और उस से हमें यह आशीर्ष मिली है कि जो कोई

परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे ॥

५. जिस का यह विश्वास है कि यीशु ही

मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करनेवाले से प्रेम रखता है वह उस से भी प्रेम रखता है जो उस से उत्पन्न हुआ है ।

- २ अब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उस की आज्ञाओं को मानते हैं तो इस से हम जानते हैं कि परमेश्वर के ३ सन्तानों से प्रेम रखते हैं । और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उस की आज्ञाओं को मानें और उस की आज्ञाएँ ४ भारी नहीं । क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय करता है और वह विजय जिस से ५ संसार पर जय होती है हमारा विश्वास है । संसार पर जय पानेवाला कौन है केवल वह जिस का यह विश्वास ६ है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है । यही है वह जो पानी और लोहू के द्वारा आया था अर्थात् यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा बरन पानी और लोहू देने के ७ द्वारा आया था । और जो गवाही देता है वह आत्मा है ८ क्योंकि आत्मा सत्य है । और गवाही देनेवाले तीन हैं आत्मा और पानी और लोहू और तीनों एक ही बात ९ पर सम्मत हैं । जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही उस से बढ़कर है और परमेश्वर की गवाही यह है कि उस ने अपने पुत्र के विषय १० गवाही दी है । जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है जिस ने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उस ने उसे झूठा ठहराया क्योंकि उस ने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने

(१) यू० । में ।

पुत्र के विषय दी है । और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनन्त जीवन दिया है और यह जीवन उस के पुत्र में है । जिस के पास पुत्र है उस के पास ११ जीवन है और जिस के पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उस के पास जीवन भी नहीं ॥

मैं ने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास १२ करते हो इसलिये लिखा है कि तुम जानो कि अनन्त जीवन तुम्हारा है । और हमें उस के सामने जो हियाब १३ होता है वह यह है कि यदि हम उस की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है । और जब १४ हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हम ने उस से मांगा वह पाया है । यदि कोई अपने भाई को ऐसा १५ पाप करते देखे जिस का फल मृत्यु न हो तो विनती करेगा और परमेश्वर उसे उन के लिये जिन्होंने ऐसा पाप किया जिस का फल मृत्यु न हो जीवन देगा । पाप ऐसा भी होता है जिस का फल मृत्यु है इस के विषय मैं विनती करने को नहीं कहता । सब प्रकार का अधर्म है तो पाप १६ और ऐसा पाप भी है जिस का फल मृत्यु नहीं ॥

हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ १७ है वह पाप नहीं करता पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता । हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं १८ और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है । और यह २० भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उस ने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचानें और हम उस में जो सत्य है अर्थात् उस के पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं । सच्चा परमेश्वर और अनन्त जीवन यही २१ है । हे बालको अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो ॥

## यूहन्ना की दूसरी पत्री ।

१. मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई

श्रीमती और उस के लड़केवालों के नाम जिन से मैं सत्य से प्रेम रखता हूँ और मैं ही नहीं पर २ वे सब जो सत्य को जानते हैं । उस सत्य के कारण जो हम में बना रहता है और सदा हमारे साथ रहेगा ॥

(१) या । प्रिस्युतिर ।

परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह ३ के ओर से अनुग्रह और दया और शान्ति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे ॥

मैं बहुत आनन्दित हुआ कि मैं ने तेरे कितने लड़के ४ बालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया । और ५

अब हे भीमती मैं तुम्हे कोई नई आशा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता और तुम्ह से बिनती ६ करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उस की आज्ञाओं के अनुसार चलें यह वही आशा है जो तुम ने आरंभ से सुनी और तुम्हें इस ७ पर चलना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे भ्रमानेवाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भ्रमानेवाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय चीकस रहो कि जो परिश्रम हम ने किया उस को तुम न बिगाड़ो बरन पूरा ९ प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता परमेश्वर उस का

नहीं। जो उस की शिक्षा में बना रहता है पिता और पुत्र दोनों उस के हैं। यदि कोई तुम्हारे पास आए और १० यही शिक्षा न दे उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार ११ करता है वह उस के बुरे कामों में साझी होता है ॥

मुझे तुम्हें बहुत सी बातें लिखनी हैं पर कागज़ १२ और सियाही से लिखना नहीं चाहता पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सन्मुख होकर बातचीत करूंगा जिस से तुम्हारा आनन्द पूरा हो। तेरी चुनी १३ हुई बहिन के लड़केवाले तुम्हे नमस्कार कहते हैं ॥

(१) या। हमारा।

## यूहना की तीसरी पत्री ।

१. मुझ प्राचीन<sup>१</sup> की ओर से उस प्यारे

ग्युस के नाम जिस से मैं सत्य से प्रेम रखता हूँ।

२ हे प्यारे मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति ३ करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच ४ चलता है तो मैं बहुत ही आनन्दित हुआ। मुझे इस से बढ़कर और कोई आनन्द नहीं कि मैं सुनूँ कि मेरे लड़केवाले सत्य पर चलते हैं ॥

५ हे प्यारे जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी भी हैं तो विश्वासी की नाईं करता ६ है। उन्हो ने मण्डली के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी। यदि तू उन्हें ऐसे आगे पहुंचाएगा जैसे परमेश्वर ७ के लोगों के योग्य है तो भला करेगा। क्योंकि वे उस नाम के हित निकले हैं और अन्यजातियों से कुछ नहीं ८ लेते। इसलिये ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिस से हम भी सत्य के सहकर्मी हों ॥

(१) या। प्रिसबुतिर।

मैं ने मण्डली के कुछ लिखा था पर दियुत्रिफेस ९ जो उन में बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। सो जब मैं आऊंगा तो उस के कामों की जो वह १० कर रहा है सुध दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी सन्तोष न करके आप ही भाइयों के ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मण्डली से निकाल देता है। हे प्यारे बुराई का नहीं ११ पर भलाई का पीछा कर जो भला करता है वह परमेश्वर से है पर जो बुरा करता है उस ने परमेश्वर को नहीं देखा। देमेत्रियुस की सब ने बरन सत्य १२ ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है।

लिखना तो तुम्ह को बहुत कुछ था पर सियाही १३ और कलम से लिखना नहीं चाहता। पर मुझे १४ आशा है कि तुम्ह से शीघ्र भेंट करूंगा तब हम सन्मुख होकर बातचीत करेंगे। तुम्हे शान्ति हांती रहे। यहां के मित्र तुम्हे नमस्कार कहते हैं। वहां के मित्रों से नाम ले ले नमस्कार कह ॥

## यहूदा की पत्री ।

### १. यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह

का दास और याकूब का भाई

है उन बुलाए हुआओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्यारे और यीशु मसीह के लिये रक्षित हैं ॥

- २ तुम्हें दया और शान्ति और प्रेम बहुतायत से मिलता रहे ॥
- ३ हे प्यारो जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय लिखने में सब प्रकार का यत्न कर रहा था जिस में हम सब सहभागी हैं तो मैं ने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उम विश्वास के लिये पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों के एक ही बेर सौंपा गया था । क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ चुके हैं जिन के इस दंड की चर्चा पुगने समय में पहिले मे लिखी गई थी । ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचान से बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह से मुकरते हैं ॥
- ५ पर यद्यपि तुम सब कुछ एक बार जान चुके हो तौभी मैं तुम्हें इस बात की सुध दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने लोगों को मिसर देश से छुड़ाकर जिन्हो ने विश्वास न किया उन्हें पीछे नाश किया । फिर जो स्वर्गदूत अपने पद को न रक्खे रहे बरन अपने निज निवास को छोड़ दिया उस ने उन को भी उस बड़े दिन के न्याय के लिये
- ७ अंधेरे में सदा काल तक बधनों में रक्खा है । जिस रीति से सदेम और अमोराह और उन के आस पास के नगर जो इन को नाईं व्यभिचारी हो गए और पराये शरीर के पीछे लग गए आग के अनन्त दह में पड़कर दृष्टान्त
- ८ ठहरे हैं । फिर भी उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पदवालों को बुरा भला कहते हैं । परन्तु प्रधान स्वर्गदूत मीकाईल ने जब शैतान से मूमा की लोथ के विषय वादविवाद करता था तो उस को बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया पर यह
- १० कहा कि प्रभु तुम्हें डांटे । पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उन को बुरा भला कहते हैं पर जिन बातों

(१) या । इबलास ।

आ० १३१

को अचेतन पशुओं की नाईं स्वभाव ही से जानते हैं उन में अपने आप को नाश करते हैं । उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिये बिलाम की नाईं भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह की नाईं विरोध करके नाश हुए हैं । ये तुम्हारी प्रेमसभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरोखे हैं और बेभड़क अपना पेट भरनेवाले राखवाले हैं वे निर्जल बाटल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है पतझड़ के निष्फल पेड़ जो दो बार मरे हैं और जड़ से उखड़े हैं । ये समुद्र के प्रचंड हिलकेरे हैं जो अपनी लजा का फेन उछालते हैं ये डांवाडोल तारे हैं जिन के लिये सदा काल तक घोर अंधेरा रक्खा गया है । और हनेक ने भी जो आदम से सातवीं पीढी में था इन के विषय यह नबूवत की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया । कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उन के अभक्ति के सब कामों के विषय जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय जो भक्तिहीन पापियों ने उस के विरोध में कही हैं दोषी ठहराये । ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ानेवाले और अपने अभिनायो के अनुमार चलनेवाले हैं और अपने मुंह से गलफटाकी की बातें बोलते हैं और वे लाम के लिये मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं ॥

पर हे प्यारो तुम उन बातों का स्मरण रक्खो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहिले कह चुके हैं । वे तुम से कहा करते थे कि पिछले समय ऐसे ठग करनेवाले होंगे जो अपने अभक्ति के अभिलाषों के अनुमार चलेंगे । ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं ये शारीरिक लोग हैं जिन्हें आत्मा नहीं । पर हे प्यारो तुम अपने बहुत ही पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रक्खो और अनन्त जीवन के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहे । और कितनों पर जो शंका में हैं दया करो । और कितनों को आग में से भयंकर निकालो और कितनों पर भय के साथ दया करो बरन उस बख से भी घिन करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हुआ हो ॥

२४ अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की

महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन से है अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन ॥

## यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ।

### १. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो

उसे परमेश्वर ने इसलिये दिया कि अपने दासों को वे बातें जिन का शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए और उस ने अपने स्वर्गादूत को भेजकर उस के द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। जिस ने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात् जो कुछ उस ने देखा उस की गवाही दी। धन्य है वह जो इस नबूवत के वचन पढ़ता है और वे जो सुनते और इस में लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट आया है ॥

४ यूहन्ना की ओर से आसिया की सात मण्डलियों के नाम। उस की ओर से जो है और जो था और जो आनेवाला है और उन सात आत्माओं की ओर से जो उस के सिंहासन के सामने हैं। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासयोग्य साक्षी और मरे हुएओं में से जी उठनेवालों में पहिलौठा और पृथिवी के राजाओं का हाकिम है तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे। जो हम से प्रेम रखता है और जिस ने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिये याजक भी बना दिया उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन।

७ देखो वह बादलों के साथ आनेवाला है और हर एक आंख उसे देखेगी बरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथिवी के सारे कुल उस के कारण छाती पीटेंगे। हां। आमीन ॥

८ प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आनेवाला है जो सर्वशक्तिमान् है यह कहता है कि मैं ही अलफा और ओमिगा हूँ ॥

९ मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के केश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम १० टापू में था। कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया

और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि। जो तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों ११ मण्डलियों के पास भेजदे अर्थात् इफिसुस और स्मरना और पिरगामुन और थ्यूआतीरा और सरदीस और फिलदिलफिया और लौदीकिया में। और मैं ने उसे जो मुझ से १२ बोल रहा था देखने के लिये मुंह फेरा और पीछे फिर के मैं ने सोने की सात दीवटें देखीं। और उन दीवटों के १३ बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहिने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उस के सिर और बाल सफेद उन बरन पाले १४ के से उजले थे और उस की आंखें आग की ज्वाला की नाई थीं। और उस के पांव उत्तम पीतल के समान भट्टी १५ में दहकाए हुए थे और उस का शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। और वह अपने दहिने हाथ में सात १६ तारे लिए हुए था और उस के मुख में चोखी दोधारी तलवार निकलती थी और उस का मुंह ऐसा था जैसा यूरज कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैं ने उसे देखा तो मैं १७ मरा हुआ सा उस के पैरों पर गिर पड़ा और उस ने मुझ पर अपना दहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर मैं पहिला और पिछला और जीविता हूँ। और मैं मर गया १८ था और देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुजियां मेरे पास हैं। इसलिये जो बातें तू १९ ने देखीं और जो हो रही हैं और जो इस के पीछे होनेवाली हैं उन सब को लिख ले। अर्थात् उन सात तारों २० का जिन्हें तू ने मेरे दहिने हाथ देखा था और उन सात दीवटों का भेद। वे सात तारे सातों मण्डलियों के दूत हैं और वे सात दीवट सात मण्डली हैं ॥

२. इफिसुस में की मण्डली के दूत को यह लिख कि,

जो सातों तारे अपने दहिने हाथ में लिए हुए है और

(१) य०। उस शब्द को।

- सोने की सातों दीवटों के बीच फिरता है वह यह कहता  
 २ है । मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता  
 हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता  
 और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं उन्हें  
 ३ तू ने परख कर भूटे पाया । और तू धीरज धरता है और  
 ४ मेरे नाम के लिये दुख उठाते उठाते थका नहीं । पर  
 मेरे मन में तेरी और यह है कि तू ने अपना पहिला सा  
 ५ प्रेम छोड़ दिया है । सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है  
 और मन फिरा और पहिले जैसे काम कर और यदि तू  
 मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को  
 ६ उस की जगह से हटा दूंगा । पर हां तुझ में यह बात  
 तो है कि तू नीकुलइयों के कामों से घिन करता है जिन  
 ७ से मैं भी घिन करता हूँ । जिस के कान हों वह सुने कि  
 आत्मा मण्डलियों से क्या कहता है । जो जय पाए  
 मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक  
 में है फल खाने का दूंगा ॥
- ८ और स्मुरना में की मण्डली के दूत को यह लिख  
 कि जो पहिला और पिछला है जो मर गया और  
 ९ जी गया वह यह कहता है कि, मैं तेरे क्लेश और  
 कंगाली को जानता हूँ । (तौभी तू धनी है) और जो  
 लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं पर  
 शैतान की सभा हैं उन की निन्दा को भी जानता हूँ ।  
 १० जो दुख तुझे सहने होंगे उन से कुछ मत डर देखो  
 शैतान' तुम में से कितनों को जेलखाने में डालने पर है  
 कि तुम परखे जाओ और तुम्हें दस दिन तक क्लेश  
 ११ का मुकुट दूंगा । जिस के कान हों वह सुने कि आत्मा  
 मण्डलियों से क्या कहता है । जो जय पाए उस को  
 दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी ॥
- १२ और पिरगमुन में की मण्डली के दूत को यह  
 लिख कि,  
 जिस के पास दोधारी और चोखी तलवार है वह  
 १३ यह कहता है कि, मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहां रहता  
 है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर बना  
 रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी  
 नहीं मुकर गया जिन में मेरा विश्वासयोग्य साक्षी  
 अन्तिपास तुम में जहां शैतान रहता है वहां घात किया  
 १४ गया था । पर मेरे मन में तेरी और कुछ है कि तेरे यहां  
 कितने हैं जो विलाम की शिक्षा को मानते हैं जिस ने  
 बालाक को इस्राईलियों के आगे ठोकर का कारण रखना  
 सिखाया कि वे मूरतों के बलिदान खाएँ और व्यभिचार  
 (१) यू० । इबलीस ।

करें । वैसे ही तेरे यहां कितने हैं जो नीकुलइयों की  
 शिक्षा को मानते हैं । सो मन फिरा नहीं तो मैं तेरे  
 पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उन के साथ  
 लड़ंगा । जिस के कान हों वह सुने कि आत्मा मण्ड-  
 लियों से क्या कहता है जो जय पाए उस को मैं गुप्त  
 मान में से दूंगा और उसे एक सफेद पत्थर भी दूंगा  
 और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा  
 जिसे कोई नहीं जानता केवल वह जो उमे पाता है ॥

और थूआतीरा में की मण्डली के दूत को यह  
 लिख कि,

परमेश्वर का पुत्र जिस की आंखें आग की ज्वाला  
 की नाईं और पांव उत्तम पीतल के समान हैं यह कहता  
 है कि, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा  
 और धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तेरे पिछले  
 काम पहिलों से बढ़कर हैं । पर मेरे मन में तेरी और यह  
 है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो  
 अपने आप को नबिया कहती है और मेरे दासों को  
 व्यभिचार करने और मूरतों के आगे के बलिदान खाने  
 को सिखाकर भरमाती है । मैं ने उस को मन फिराने के  
 लिये अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन  
 फिराना नहीं चाहती । देख मैं उमे खाट पर डालना हूँ  
 और जो उस के साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे उस के  
 से कामों से मन न फिराएँ तो उन्हें बड़े क्लेश में  
 डालूंगा । और मैं उस के बच्चों को भार डालूंगा और  
 मण्डलियां जानेंगी कि हृदय और मन का जांचनेवाला  
 मैं ही हूँ और मैं तुम में से हर एक को उस के कामों के  
 अनुसार बदला दूंगा । पर तुम थूआतीरा के बाकी  
 लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन  
 बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं  
 जानते यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और भार न  
 डालूंगा । पर हां जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक  
 धरे रहो । जो जय पाए और मेरे से कामों का अन्त तक  
 करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार  
 दूंगा । और वह लोहे का दंड लिये हुए उन पर राज्य  
 करेगा जैसे मिष्टी के बरतन चकनाचूर हो जाते हैं जैसे कि  
 मैं ने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है । और  
 मैं उसे भार का तारा दूंगा । जिस के कान हों वह सुने  
 कि आत्मा मण्डलियों से क्या कहता है ॥

३. और सरदीस की मण्डली के दूत को यह  
 लिख कि,

जिस के पास परमेश्वर के सात आत्मा और सात तारे  
 हैं वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू



- २ जीविता कहलाता है और है मरा । जागता रह और जो बाकी रह गए हैं और मिटने पर हैं उन्हें स्थिर कर क्योंकि मैं ने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया । सो चेत कर कि तू ने किस रीति से सीखा और सुना था और उस में बना रह कर मन फिरा । सो यदि तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की नाईं आऊंगा और तू न जानेगा कि मैं कौन सी षड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा । पर हां सरदीस में तेरे यहां थोड़े से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए और वे उजले वस्त्र पहिने हुए मेरे साथ चलें फिरेंगे क्योंकि वे इसी योग्य हैं । जो जय पाए उसे इसी तरह उजला वस्त्र पहिनाया जाएगा और मैं उस का नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा पर उस का नाम अपने पिता और उस के स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा । जिस के कान हों वह सुने कि आत्मा मण्डलियों से क्या कहता है ॥
- ७ और फिलोदलफिया में की मण्डली के दूत को यह लिख कि,  
जो पवित्र और सत्य है और दाऊद की कुंजी रखता है जो खोलता है और कोई बन्द नहीं करता और बन्द करता है और कोई नहीं खोलता वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों का जानता हूँ (देख मैं ने तेरे सामने द्वार खोल रक्खा है जिसे कोई बन्द नहीं कर सकता) कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तू मेरे वचन को थाम रहा है और मेरे नाम से नहीं मुकरा । देख मैं शैतान के सभावालों को जो यहूदी बन बैठे पर हैं नहीं बरन भूठ बोलते हैं—देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर प्रणाम करेंगे और जान लेंगे कि मैं ने तुझ से प्रेम रक्खा है । तू ने मेरे धीरज के वचन को थामा है इसलिये मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रक्खूंगा जो पृथिवी पर रहनेवालों के परखने के लिये सारे संसार पर आनेवाला है । मैं शीघ्र आनेवाला हूँ जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट न छीन ले । जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मन्दिर में एक खभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात् नये यरूशलेम का नाम जो स्वर्ग पर से मेरे परमेश्वर के पास से उतरनेवाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा । जिस के कान हों वह सुने कि आत्मा मण्डलियों से क्या कहता है ॥
- १४ और लौदीकिया में की मण्डली के दूत को यह लिख,

जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है वह यह कहता है । मैं तेरे कामों का जानता हूँ कि तू न ठंडा है न गर्म भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता । सो इसलिये कि तू गुनगुना है और न ठंडा न गर्म मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ । तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान् हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और यह नहीं जानता कि तू ही दीन हान और अभाग और कंगाल और अंधा और नगा है । इसी लिये मैं तुझे सलाह देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझ से माल ले कि धनी हो जाए और उजला वस्त्र ले कि पहिनकर तुझे नगेपन की लज्जा न हो और अपनी आंखों में लगाने के लिये अंजन ले कि तुझे सुझने लगे । मैं जिन जिन से प्राति रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ इसलिये सरगर्म हो और मन फिरा । देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खालेगा तो मैं उस के पास भीतर आकर उस के साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ । जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उस के सिंहासन पर बैठ गया । जिस के कान हों वह सुने कि आत्मा मण्डलियों से क्या कहता है ॥

४. इस के पीछे मैं ने दृष्टि की और देखो स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिस को मैं ने पहिले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था यह कहता है कि यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिन का इस के पीछे पूरा होना अवश्य है । और तुरन्त मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है । और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा देख पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है । और उस सिंहासन के चारों ओर चौबीस सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर चौबीस प्राचीन उजला वस्त्र पहिने हुए बैठे हैं और उन के सिरो पर सोने के मुकुट हैं । ओर उस सिंहासन में से विजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के सात दीपक जल रहे हैं ये परमेश्वर के सात आत्मा हैं । और उस सिंहासन के सामने मानो विल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है और सिंहासन के बीच और सिंहासन के सामने चार प्राणी हैं जिन के आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं । पहिला प्राणी सिंह के समान और दूसरा

प्राणी बड़ड़े के समान तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाव के समान है ।  
 ८ और चारों प्राणियों के छः छः पंख हैं और चारों ओर और भीतर आँखें ही आँखें हैं और वे रात दिन बिना विभ्राम लिये यह कहते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान् जो था और जो है और जो आने-  
 ९ वाला है । और जब जब वे प्राणी उस की जो सिंहासन पर बैठा है जो युगानुयुग जीविता है महिमा और आदर  
 १० और धन्यवाद करेंगे । तब तब चौबीसों प्राचीन सिंहासन पर बैठनेवाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानु-  
 ११ युग जीविता है प्रणाम करेंगे और आने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है क्योंकि तू ही ने सारी वस्तुएँ सिरजों और वे तेरी ही इच्छा से र्थी और सिरजी गई ॥

५. और जो सिंहासन पर बैठा था मैं ने उस के दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह सात  
 २ छाप लगाकर बन्द की गई थी । और मैं ने एक बलवन्त स्वर्गदूत को देखा जो ऊँचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उस की छापें तोड़ने के  
 ३ योग्य कौन है । और न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथिवी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोल सकता था उस पर  
 ४ दृष्टि कर सकता था । और मैं फूट फूटकर रोने लगा इसलिये कि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि  
 ५ करने के योग्य कोई न भला । और उन प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा मत रो देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है ऐसा जयवन्त हुआ कि इस पुस्तक को खोल और उस की सातों छाप ताड़ सकता  
 ६ है । और मैं ने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मंझा खड़ा देखा उस के सात सोंग और सात आँखें थीं वे परमेश्वर के सातों आत्मा हैं जो सारी पृथिवी पर  
 ७ भेजे गए हैं । उस ने आकर उस के दाहिने हाथ से जो  
 ८ सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली । और जब उस ने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन उस मेम्ने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में  
 ९ नीशा और धूर से भरे हुए सोने के कटोर थे वे तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं । और वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उस की छापें खोलने के योग्य है क्योंकि तू ने वध होकर अपने लोहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के

लिये लोगों को मेल लिया । और उन्हें हमारे परमेश्वर १० के लिये एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथिवी पर राज्य करते हैं । और जब मैं ने देखा तो उस सिंहा- ११ सन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिन की गिनती लाखों और करोड़ों की थी । और वे ऊँचे शब्द से कहते थे कि १२ वध किया हुआ मेम्ना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है । फिर मैं ने स्वर्ग में और पृथिवी पर और १३ पृथिवी के नीचे और समुद्र की सब सिरजी हुई वस्तुओं को और सब कुल जो उन में हैं यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उस का और मेम्ने का धन्यवाद और आदर और महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे । और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने १४ गिरकर प्रणाम किया ॥

६. फिर मैं ने देखा कि मेम्ने ने उन सात छापों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ । और मैं ने दृष्टि की और देखो एक श्वेत २ घोड़ा है और उस का सवार धनुष लिये हुए है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और और भी जय करने का निकला ॥

और जब उस ने दूसरी छाप खोली तो मैं ने दूसरे ३ प्राणी को यह कहते सुना कि आ । फिर एक और ४ घोड़ा निकला जो लाल रंग का था उस के सवार का यह अधिकार दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा ले कि लोग एक दूसरे को वध करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई ॥

और जब उस ने तीसरी छाप खोली तो मैं ने ५ तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ । और मैं ने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उस के सवार के हाथ में एक तराजू है । और मैं ने उन चारों ६ प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दीनार<sup>१</sup> का सेर भर गेहूं और दीनार<sup>२</sup> का तीन सेर जव और तेल और दाख रस की हानि न करना ॥

और जब उस ने चौथी छाप खोली तो मैं ने ७ चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ । और मैं ने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उस के सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उस के साथ हो लेता है और उन्हें पृथिवी को एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी

- और पृथिवी के बन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें ॥
- ९ और जब उस ने पांचवीं छाप खोली तो मैं ने वेदी के नीचे उन के प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने ने
- १० दी वध किए गए थे । और उन्होंने ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे स्वामी हे पवित्र और सत्य तू कब तक न्याय न करेगा और पृथिवी के रहनेवालों से हमारे लोहू का
- ११ पलटा न लेगा । और उन में से हर एक को उजला वस्त्र दिया गया और उन से कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करे जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होनेवाले हैं उन की भी गिनती पूरी न हो ॥
- १२ और जब उस ने छठवीं छाप खोली तो मैं ने देखा कि एक बड़ा भूईं डोल हुआ और सूरज कम्मल की नाई
- १३ काला और पूरा चांद लोहू सा हो गया । और आकाश के तारे पृथिवी पर गिरे जैसे बड़ी आंधी से हिल कर
- १४ अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं । और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपनी अपनी जगह से टल
- १५ गया, और पृथिवी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चटानों में जा
- १६ छिपे । और पहाड़ों और चटानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़े और हमें उस के मुंह से जो सिंहासन पर बैठा
- १७ है और मेम्ने के क्रोध से छिगा लो । क्योंकि उन के क्रोध का बड़ा दिन आ पहुंचा है अब कौन ठहर सकता है ॥

७. इस के पीछे मैं ने पृथिवी के चारों कोनों

- पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे वे पृथिवी की चारों हवाओं को थामे हुए थे कि पृथिवी या
- २ समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले । फिर मैं ने एक और स्वर्गदूत को जीविते परमेश्वर की छाप लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा उस ने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथिवी और समुद्र की हानि करने का
- ३ अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर छाप न दें तब तक पृथिवी और समुद्र और पेड़ों को हानि न
- ४ पहुंचाना । और जिन पर छाप दी गई मैं ने उन की गिनती सुनी कि इस्त्राईल के सन्तानों के सारे गोत्रों में
- ५ से एक लाख चौआलीस हजार पर छाप दी गई । यहूदा के गोत्र में से बारह हजार पर छाप दी गई रूबेन के गोत्र में से बारह हजार पर गाद के गोत्र में से बारह

- हजार पर । आशर के गोत्र में से बारह हजार पर नफ- ६  
ताली के गोत्र में से बारह हजार पर मनशिशह के गोत्र ७  
में से बारह हजार पर । शमीन के गोत्र में से बारह ७  
हजार पर लेवी के गोत्र में से बारह हजार पर इस्साकार ८  
के गोत्र में से बारह हजार पर । जबूलून के गोत्र में से ८  
बारह हजार पर यूसुफ के गोत्र में से बारह हजार पर ९  
बिनयामीन के गोत्र में से बारह हजार पर छाप दी गई । ९  
इस के पीछे मैं ने दृष्टि की और देखो हर एक जाति ९  
और कुल और लोग और भाषा में से ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता उजले वस्त्र पहिने और अपने हाथों १०  
में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और १०  
मेम्ने के सामने खड़ी है । और बड़े शब्द से पुकारकर १०  
कहती है उद्धार के लिये हमारे परमेश्वर का जो सिंहा- ११  
सन पर बैठा है और मेम्ने का जयजयकार हो । और ११  
सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों १२  
प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं फिर वे सिंहासन के सामने १२  
मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर का प्रणाम करके १२  
कहा आमीन । हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा १२  
और शान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और १३  
शक्ति युगानुयुग बने रहें । आमीन । इस पर प्राचीनों में १३  
से एक ने मुझ से कहा ये उजले वस्त्र पहिने हुए कौन हैं १३  
और कहाँ से आए हैं । मैं ने उस से कहा हे स्वामी तू १४  
ही जानता है । उस ने मुझ से कहा ये वे हैं जो उस १४  
बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं इन्हीं ने अपने अपने १४  
वस्त्र मेम्ने के लोहू में धांकर उजले किये हैं । इसी १५  
कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उस के १५  
मन्दिर में रात दिन उस की सेवा करते रहते हैं और १६  
जो सिंहासन पर बैठा है वह उन के ऊपर अपना तंबू १६  
तानेगा । वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन १६  
पर धूप न कोई तपन पड़ेगा । क्योंकि मेम्ना जो सिंहा- १७  
सन के बीच में है उन की रखवाली करेगा और उन्हें १७  
जीवन रूगी जल के सोता के पास ले जाया करेगा और १७  
परमेश्वर उन की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा ॥

८. और जब उस ने सातवीं छाप खोली तो

- स्वर्ग में आध घड़ी तक मौन २  
छा गया । और मैं ने उन सातों स्वर्गदूतों को जो परमे- २  
श्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें सात तुरही २  
दी गई ॥

- फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए ३  
हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उस को ३  
बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं ३

(१) सू० । पवित्रस्थान ।

- के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने  
 ४ है चढ़ाए । और उस धूप का धूआं पवित्र लोगों की  
 प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने  
 ५ पहुंच गया । और स्वर्गदूत ने वह धूपदान लेकर उस में  
 वेदी की आग भरी और पृथिवी पर डाल दी और गर्जन  
 और शब्द और बिजलियां और भूईं डोल हुए ॥
- ६ और वे सातों स्वर्गदूत जिन के पास सात तुरहियां  
 थीं फूंकने के तैयार हुए ॥
- ७ पहिले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लोहू से  
 मिले हुए ओले और आग हुए और वे पृथिवी पर डाले  
 गये और पृथिवी की एक तिहाई जल गई और पेड़ों की  
 एक तिहाई जल गई और सब हरी घास जल गई ॥
- ८ और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और आग से  
 जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ सा समुद्र में डाला गया  
 ९ और समुद्र की एक तिहाई लोहू हो गई । और समुद्र  
 में की सिरजी हुई वस्तुओं की एक तिहाई जो सजीव थीं  
 मर गई और जहाजों की एक तिहाई नाश हो गई ॥
- १० और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा  
 तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और  
 नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सातों पर आ  
 ११ पड़ा । और उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है  
 और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और  
 बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गये ॥
- १२ और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूरज की  
 एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक  
 तिहाई मारी गई यहां तक कि उन की एक तिहाई  
 अंधेरा हो गई और दिन की एक तिहाई में उजाला न  
 रहा और वैसे ही रात में भी ॥
- १३ और मैं ने देखा तो आकाश के बीच में एक  
 उकास को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहने सुना कि  
 उन तीन स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिन  
 का फूंकना अभी बाकी है पृथिवी के रहनेवालों पर हाथ  
 हाथ ॥

## ९. और पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी

- और मैं ने स्वर्ग से पृथिवी पर  
 एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की  
 २ कुंजी दी गई । और उस ने अथाह कुंड को खोला और  
 कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धूआं उठा और कुंड के धूप  
 ३ से सूरज और आकाश अंधेरे हो गए । और उस धूप में  
 से पृथिवी पर टिड्डियां निकलीं और उन्हें पृथिवी के  
 ४ बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई । और उन से कहा गया  
 कि न पृथिवी की घास को न किसी हरियाली को न

किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ केवल उन मनुष्यों को जिन  
 के माथे पर परमेश्वर की छाप नहीं । और उन्हें मार ५  
 डालने का तो नहीं पर पांच महीने तक लोगों को पीड़ा  
 देने का अधिकार दिया गया और उन की पीड़ा ऐसी थी  
 जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है । उन ६  
 दिनों में मनुष्य मृत्यु को दूढ़ेंगे और न पाएंगे और मरने  
 की लालसा करेंगे और मृत्यु उन से भागेगी । और उन ७  
 टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिये तैयार किए हुए घोड़ों  
 के से थे और उन के सिरों पर मानों सोने के मुकुट थे  
 और उन के मुंह मनुष्यों के से थे । और उन के बाल ८  
 छियों के से और दांत सिंहां के से थे । और वे लोहे की ९  
 सी फिलम पहिने थे और उन के पंखों का शब्द ऐसा था  
 जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते  
 हों । और उन को पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उन में १०  
 डंक थे और उन्हें पांच महीने तक मनुष्यों को दुख  
 पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वह उन की पूंछों में थी ।  
 अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था उस का नाम ११  
 इब्रानी में अबहोन और यूनानी में अपुल्लयान है ॥

पहिली विपत बीत चुकी देखो अब इस के पीछे दो १२  
 विपतें होनेवाली हैं ॥

और छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और जो सोने १३  
 की वेदी परमेश्वर के सामने है उस के सींगों में से मैं ने  
 ऐसा शब्द सुना । जो छठवें स्वर्गदूत से जिस के पास १४  
 तुरही थी कोई कह रहा है उन चार स्वर्गदूतों को जो  
 बड़ी नदी फिगत के पास बंधे हुए हैं खोल दे । और वे १५  
 चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और  
 महीने और बरस के लिये मनुष्यों की एक तिहाई के मार  
 डालने के तैयार किए गए थे । और फौजों के सवारों की १६  
 गिनती बिस करोड़ थी मैं ने उन की गिनती सुनी । और १७  
 मुझे इस दर्शन में घोड़े और उन के ऐसे सवार दिखाई  
 दिए जिन की फिलमें आग और धूम्रकान्त और गन्धक  
 की सी थी और उन घोड़ों के सिर सिंहां के सिरों के से थे  
 और उन के मुंह से आग और धूआं और गन्धक  
 निकलती थी । इन तीनों मरियों अर्थात् आग और धूप १८  
 और गन्धक से जो उस के मुंह से निकलती थीं मनुष्यों  
 को एक तिहाई मार डाली गई । क्योंकि उन घोड़ों १९  
 की सामर्थ्य उन के मुंह और उन की पूंछों में थी इसलिये  
 उन की पूंछें सांपों की सी थीं और उन पूंछों में सिर  
 भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे । और बाकी २०  
 मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के  
 कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने  
 और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूरतों

की पूजा न करें जो न देख न सुन न चल सकती हैं ।  
२१ और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां  
उन्होंने की थीं उन से मन न फिराया ॥

१०. फिर मैं ने एक और बली स्वर्गदूत

को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से  
उतरते देखा उस के सिर पर मेघ-धनुष था और उस  
का मुंह सूरज सा और उस के पांव आग के खंभे से थे ।  
२ और उस के हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी  
उस ने अपना दहना पांव समुद्र पर और बायां पृथिवी  
३ पर रक्त्वा । और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह  
गरजता है और जब वह चिल्लाया तो गर्ज के सात शब्द  
४ सुनाई दिए । और जब सातों गर्ज के शब्द सुनाई दे  
चुके तो मैं लिखने पर था और मैं ने स्वर्ग से यह शब्द  
सुना कि जो बातें गर्ज के उन सात शब्दों से सुनी हैं  
५ उन्हें गुप्त रख<sup>१</sup> और मन लिख । और जिस स्वर्गदूत को  
मैं ने समुद्र और पृथिवी पर खड़े देखा था उस ने अपना  
६ दहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया । और जो युगानुयुग  
जीविता रहेगा और जिस ने स्वर्ग और जो कुछ उस में है  
और पृथिवी और जो कुछ उस पर है और समुद्र और  
जो कुछ उस में है सिरजा उसी की किगिया । खाकर कहा  
७ अथ तो और देर न होगी<sup>२</sup> । पर सातवें स्वर्गदूत के शब्द  
देने के दिनों में जब वह तुरही फूकने पर होगा तो परमे-  
श्वर का गुप्त मनोरथ<sup>३</sup> उस सुममाचार के अनुसार जो  
८ उस ने अपने दास नबियों को दिया पूरा होगा । और  
जिस शब्द करनेवाले को मैं ने स्वर्ग से बोलते सुना था  
वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा जो स्वर्गदूत  
समुद्र और पृथिवी पर खड़ा है उस के हाथ में की खुली  
९ हुई पुस्तक ले ले । और मैं ने स्वर्गदूत के पास जाकर  
कहा यह छोटी पुस्तक मुझे दे और उस ने मुझ से कहा  
ले इसे खा जा और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे  
१० मुंह में मधु सी मीठी लगेगी । सो मैं वह छोटी पुस्तक  
उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया वह मेरे मुंह  
में मधु सी मीठी तो लगी पर जब मैं उसे खा गया तो  
११ मेरा पेट कड़वा हो गया । तब मुझ से यह कहा गया कि  
तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और  
राजाओं पर फिर नबूत करनी हांगी ॥

११. और मुझे लगी के समान एक

सरकंडा दिया गया और किसी  
ने कहा उठ परमेश्वर के मन्दिर और बेदी और उस में  
२ के भजन करनेवालों को नाप । और मन्दिर के बाहर का  
आंगन छोड़ दे और उसे मत नाप क्योंकि वह अन्य

(१) य० । उन पर छाप दे । (२) या । समय न होगा । (३) य० । वेद ।

जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को बया-  
लीस महीने तक रौंदेंगे । और मैं अपने दो गवाहों को ३  
यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए एक हजार दो सौ ४  
साठ दिन नबूत करें । ये वे ही जैतून के दो पेड़ और  
दो दीवट हैं जिन पृथिवी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं ।  
और यदि कोई उन को हानि पहुंचाना चाहता है तो उन ५  
के मुंह से आग निकल कर उन के बैरियों को भस्म  
करती है और यदि कोई उन को हानि पहुंचाना चाहता ६  
है तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा । इन्हें  
अधिकार है कि आकाश को बन्द करें कि उन की नबू-  
वत के दिनों में मेह न बरसे और उन्हें सब पानी पर  
अधिकार है कि उसे लोह बनाए और जब जब चाहें तब ७  
तब पृथिवी पर हर प्रकार की मरी लाएं । और जब वे  
अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में ८  
से निकलेगा उन से लड़कर उन्हें जीनेगा और उन्हें मार  
डालेगा । और उन की लोथें उस बड़े नगर के चौक में ९  
पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिसर कह-  
लाता है जहां उन का प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था ।  
और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों १०  
में से लोग उन की लोथें साढ़े तीन दिन तक देखते  
रहेंगे और उन की लोथें ऊपर में रखने न देंगे । और १०  
पृथिवी के रहनेवाले उन के मरने से आनन्दित और  
मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे क्योंकि  
इन दोनों नबियों ने पृथिवी के रहनेवालों को पीड़ा दी ११  
थी । और साढ़े तीन दिन के पीछे परमेश्वर की ओर से ११  
जीवन का आत्मा उन में पैठ गया और वे अपने  
पांवों के बल खड़े हो गए और उन के देखनेवालों पर  
बड़ा भय छा गया । और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा १२  
शब्द सुनाई दिया कि यहां ऊपर आओ यह सुन वे  
बादल में होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर  
उठ गए । और उसी घड़ी बड़ा भूदंडोल हुआ और १३  
नगर का दसवां अंश गिर पड़ा और उस भूदंडोल से  
सात हजार मनुष्य मरे और शेष डर गए और स्वर्ग के  
परमेश्वर की महिमा की ॥

दूसरी विपत बीत चुकी देखो तीसरी विपत जल्द १४  
आनेवाली है ॥

और सातवें दूत ने तुरही फूकी और स्वर्ग में बड़े १५  
बड़े शब्द हुए कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और  
उस के मसीह का हो गया । और वह युगानुयुग राज्य १६  
करेगा और चौबीसों प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने  
अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर  
को प्रणाम करके, यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान् प्रभु १७  
परमेश्वर जो है और जो था हम तेरा धन्यवाद करते

है कि तुने अपनी बड़ी सामर्थ्य काम में लाकर राज्य १८ किया है। और अन्यजातियों ने क्रोध किया और तेरा क्रोध आ पड़ा और वह समय आ पहुँचा है कि मरे हुआ का न्याय किया जाए और तेरे दास नबियों और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़े को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथिवी के बिगाड़नेवाले बिगाड़े जाएं ॥

१९ और परमेश्वर का जो मन्दिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उस के मन्दिर में उस की वाचा का सन्दूक दिखाई दिया और विजलियां और शब्द और गर्ज और भूहँडोल हुए और बड़े ओले पड़े ॥

**१२. फिर** स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया अर्थात् एक स्त्री जो सूरज

ओढ़े हुए थी और चाँद उस के पाँवों तले था और उस २ के सिर पर बारह तारों का मुकुट था। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ उसे लगी ३ थी और वह जनने को पीड़ित थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर जिस के सात सिर और दस सींग थे और उम के सिरों ४ पर सात राजमुकुट थे। और उस की पूंख ने आकाश के तारों की एक तहई के खींचकर पृथिवी पर डाल दिया और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जना चाहती थी खड़ा हुआ कि जब जने तो उस के बच्चे को निगल जाए। ५ और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिये हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और उस का बच्चा एका-एक परमेश्वर के पास और उस के सिंहासन के पास ६ उठाकर पहुँचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल के भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उस के लिये एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह एक हज़ार दो सौ साठ दिन तक पाली जाए ॥

७ फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई मीकाईल और उस के स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और ८ उस के दूत उस से लड़े। परन्तु प्रबल न हुए और स्वर्ग ९ में उन के लिये फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात् वही पुराना साँप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमानेवाला है पृथिवी पर गिरा दिया गया और उस के दूत उस के साथ गिरा १० दिए गए। फिर मैं ने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उदार और सामर्थ्य और राज्य और उस के मसीह का अधिकार प्रगट हुआ है क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगानेवाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था

५० १३२

गिरा दिया गया। और वे मेम्ने के लोह के कारण और ११ अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयबन्त हुए और उन्होंने ने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उन में के १२ रहनेवालो मगन हो हे पृथिवी और समुद्र तुम पर हाय क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है क्योंकि जानता है कि मेरा थोड़ा ही समय और है ॥

और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथिवी पर गिरा १३ दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। और उस स्त्री को बड़े उकाब के दो पंख दिए गए कि १४ साँप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुँच जाए जहाँ वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और साँप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुँह से १५ नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परन्तु पृथिवी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना १६ मुँह खोल कर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुँह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ १७ और उस के शेष सन्तान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानत और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने

**१३.** का गया। और वह समुद्र की बालू पर जा खड़ा हुआ ॥

और मैं ने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिस के दस सींग और सात सिर थे और उस के २ सींगों पर दस राजमुकुट और उस के सिरों पर निन्दा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैं ने देखा वह चीते की नाई था और उस के पाँव बालू के से और मुँह ३ सिंह का सा था और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैं ने उस के सिरों में से एक पर ऐसा भारो घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है फिर उस का प्राणहारक घाव अन्ध हो गया और सारी पृथिवी के लोग उस पशु के ४ पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। और उन्होंने ने अजगर की पूजा की क्योंकि उस ने पशु को अपना अधिकार दिया और यह कहकर पशु का पूजा की कि इस पशु के समान कौन है कौन उस से लड़ सकता है। और बड़े बोल ५ बोलने और निन्दा करने के लिये उसे एक मुँह दिया गया और उसे बयालीस महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उस ने परमेश्वर की निन्दा करने के ६ लिये मुँह खोला कि उस के नाम और उस के तंबू अर्थात् स्वर्ग के रहनेवालों की निन्दा करे। और उसे यह ७

(१) सू०। इबलास।

अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर  
जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा  
८ और जाति पर अधिकार दिया गया । और पृथिवी के वे  
सब रहनेवाले जिन के नाम उस मेम्ने की जीवन की  
पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से  
९ बात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे । जिस के कान हों  
१० वह सुने । जिस को कूद में पड़ना है वह कूद में पड़ेगा  
जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा  
जाएगा पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है ॥  
११ फिर मैं ने एक और पशु को पृथिवी में से निकलते  
हुए देखा उस के मेम्ने के से दो सांग थे और अजगर की  
१२ नाई बोलता था । और यह उस पहिले पशु का सारा  
अधिकार उस के सामने काम में लाता है और पृथिवी  
और उस के रहनेवालों से उस पहिले पशु की जिस का  
१३ प्राणहारक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था । और  
वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था यहां तक कि मनुष्यों के  
१४ सामने स्वर्ग से पृथिवी पर आग उतार देता था । और  
उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने  
का अधिकार उसे दिया गया था वह पृथिवी के रहनेवालों  
को ऐसा भरमाता था कि पृथिवी के रहनेवालों से कहता  
था कि जिस पशु के तलवार लगी थी और वह जी गया  
१५ उस की मूरत बनाओ । और उसे उस पशु की मूरत में  
प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत  
बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूरत की  
१६ पूजा न करें उन्हें मरवा डालें । और उस ने छोटे  
बड़े धनी कंगाल स्वतन्त्र दास सब के दहिने हाथ या  
१७ उन के माथे पर एक एक छाप करा दी । कि उस  
को छोड़ जिस पर छाप अर्थात् उस पशु का नाम या  
उस के नाम का अंक हो और कोई लेन देन न  
१८ कर सके । ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु  
का अंक जोड़ ले क्योंकि वह मनुष्य का सा अंक है  
और उस का अंक छः सौ छियासठ है ॥

१४. फिर मैं ने दृष्टि की और देखो वह  
मेम्ना सियोन पहाड़ पर  
खड़ा है और उस के साथ एक लाख चौआलीस  
हज़ार जन हैं जिन के माथे पर उस का और उस  
२ के पिता का नाम लिखा हुआ है । और स्वर्ग से  
मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत  
धाराओं और बड़े गर्जन के शब्द सा था और जो शब्द  
मैं ने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजानेवाले  
३ वीणा बजाते हों । और वे सिंहासन के सामने और  
चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानों एक नया

गीत गा रहे थे और उन एक लाख चौआलीस हज़ार  
जनों को छोड़ जो पृथिवी पर से मोल लिए गए थे कोई  
वह गीत न सीख सकता था । ये वे हैं जो छियों के  
साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं । ये वे हैं कि  
जहाँ कहीं मेम्ना जाता है वे उस के पीछे हो लेते हैं ।  
वे तो परमेश्वर के निमित्त पहिले फल होने के लिये  
मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं । और उन के मुंह  
से कभी झूठ न निकला था वे निर्दोष हैं ॥

फिर मैं ने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच  
में उड़ते हुए देखा जिस के पास पृथिवी पर के रहनेवालों  
की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोग को  
सुनाने के लिये सनातन सुसमाचार था । और उस ने  
बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो और उस की महिमा  
करो क्योंकि उस का न्याय करने का समय आ पहुँचा है  
और उस का भजन करो जिस ने स्वर्ग और पृथिवी और  
समुद्र और जल के सोते बनाए ॥

फिर इस के पीछे एक और दूसरा स्वर्गदूत यह  
कहता हुआ आया कि गिर पड़ी वह बड़ी बाविल गिर  
पड़ी जिस ने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी  
जातियों को पिलाई है ॥

फिर इन के पीछे एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से  
यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उस की  
मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर  
उस की छाप ले । तो वह परमेश्वर के कोप की निरी  
मदिरा जो उस के क्रोध के कटोर में ढाली गई है पीएगा  
और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेम्ने के सामने आग  
और गन्धक की पीड़ा में पड़ेगा । और उन की पीड़ा  
का धूआं युगानुयुग उठता रहेगा और जो उस पशु  
और उस की मूरत की पूजा करते हैं और जो उस के  
नाम की छाप लेते हैं उन को रात दिन चैन न मिलेगा ।  
पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की  
आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं ॥

और मैं ने स्वर्ग से एक शब्द सुना कि यह लिख  
जो मुरदे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं आत्मा  
कहता है हां क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम  
करेंगे और उन के कार्य उन के साथ हो लेते हैं ॥

और मैं ने दृष्टि की और देखो एक उजला  
बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा  
कोई बैठा है जिस के सिर पर सोने का मुकुट और हाथ  
में चोखा हंसुआ है । फिर एक और स्वर्गदूत ने मन्दिर  
में से निकलकर उस से जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द  
से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर खवनी

- कर क्योंकि लवने का समय पहुँचा है इसलिये कि  
 १६ पृथिवी की खेती पक चुकी है । सो जो बादल पर बैठा  
 था उस ने पृथिवी पर अपना हंसुआ लगाया और  
 पृथिवी की लवनी की गई ॥
- १७ फिर एक और स्वर्गदूत उस मन्दिर<sup>१</sup> में से  
 निकला जो स्वर्ग में है और उस के पास भी चोखा  
 १८ हंसुआ था । फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर  
 अधिकार था वेदी में से निकला और जिस के पास चोखा  
 हंसुआ था उस से ऊँचे शब्द से कहा अपना चोखा  
 हंसुआ लगाकर पृथिवी की दाखलता के गुच्छे काट  
 १९ ले क्योंकि उस की दाख पक चुकी है । और उस स्वर्गदूत  
 ने पृथिवी पर अपना हंसुआ डाला और पृथिवी की  
 दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के कोप  
 २० के बड़े रस के कुंड में डाल दिया । और नगर के बाहर  
 उस रस के कुंड में दाख रँदि गए और रस के कुंड में  
 से इतना लोहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुँचा  
 और सौ कोस तक बह गया ॥

### १५. फिर मैं ने स्वर्ग में एक और बड़ा

- और अद्भुत चिन्ह देखा अर्थात्  
 सात स्वर्गदूत जिन के पास सातों पिछली बिपतें थीं  
 क्योंकि उन के हो जाने पर परमेश्वर के कोप का अन्त है ॥
- २ और मैं ने एक आग से मिले हुए कांच का सा  
 समुद्र देखा और जो उस पशु पर और उस की मूरत  
 पर और उस के नाम के अंक पर जयवन्त हुए थे उन्हें  
 उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर को बीणाओं  
 ३ को लिए हुए खड़े देखा । और वे परमेश्वर के दास  
 मूसा का गीत और मेम्ने का गीत गा गाकर कहते थे  
 कि हे सर्वशक्तिमान् प्रभु परमेश्वर तेरे कार्य बड़े और  
 अद्भुत हैं हे युग युग के राजा तेरी चाल ठीक और  
 ४ सच्ची है । हे प्रभु कौन नृभ से न डरेगा और तेरे नाम  
 की महिमा न करेगा क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और  
 सारी जातियां आकर तेरे सामने प्रणाम करेंगी क्योंकि  
 तेरे न्याय के काम प्रगट हो गए हैं ॥
- ५ और इस के पीछे मैं ने देखा कि स्वर्ग में सात्नी  
 ६ के तंबू का मन्दिर खोला गया । और वे सातों स्वर्गदूत  
 जिन के पास सातों बिपतें थीं शुद्ध और चमकती हुई मणि  
 पहिने हुए छाती पर सुनहले पट्टके बांधे हुए मन्दिर<sup>२</sup> से  
 ७ निकले । और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात  
 स्वर्गदूतों के परमेश्वर के जो युगानुयुग जीविता है कोप से  
 ८ भरे हुए सात सोने के कटोरे दिए । और परमेश्वर की

(१) य० । पवित्रस्थान ।

महिमा और उस की सामर्थ्य के कारण मन्दिर<sup>२</sup> धुप से  
 भर गया और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों  
 बिपतें अन्त न हुईं तब तक कोई मन्दिर<sup>२</sup> में न जा सका ॥

### १६. फिर मैं ने मन्दिर में किसी को

ऊँचे शब्द से उन सातों  
 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के कोप  
 के सातों कटोरों को पृथिवी पर उंडेल दे ॥

सो पहिले ने जाकर अपना कटोरा पृथिवी पर २  
 उंडेल दिया । और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की  
 छाप थी और जो उस की मूरत की पूजा करते थे एक  
 प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला ॥

और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल ३  
 दिया और वह मरे हुए का मा लोहू बन गया और समुद्र  
 में का हर एक जीवधारी मर गया ॥

और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी ४  
 के सातों पर उंडेल दिया और वे लोहू बन गए । और ५  
 मैं ने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र  
 जो है और जो था तू न्यायी है और तू ने यह न्याय ६  
 किया । क्योंकि उन्होंने ने पवित्र लोगों और नवियों  
 का लोहू बहाया था और तू ने उन्हें लोहू पिलाया ७  
 क्योंकि वे इसी योग्य हैं । फिर मैं ने वेदा से यह शब्द  
 सुना कि हां हे सर्वशक्तिमान् प्रभु परमेश्वर तेरे फैसले  
 सच्चे और ठीक हैं ।

और चौथे ने अपना कटोरा सूरज पर उंडेल ८  
 दिया और उसे मनुष्यों को आग से फुलसा देने का ९  
 अधिकार दिया गया । और मनुष्य बड़ी तपन से फुलस  
 गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन बिपतों पर  
 अधिकार है निन्दा की और उस की महिमा करने के  
 लिये मन न फिराया ॥

और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के १०  
 सिंहासन पर उंडेल दिया और उस के राज्य पर अंधेरा  
 छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी  
 जीभ चबाने लगे । और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के ११  
 कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निन्दा की और अपने अपने  
 कामों से मन न फिराया ॥

और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फिरात पर १२  
 उंडेल दिया और उस का पानी सूख गया कि पूरब दिशा  
 के राजाओं के लिये मार्ग तैयार हो जाए । और मैं ने उस १३  
 अजगर के मुँह से और उस पशु के मुँह से और उस  
 झूठे नबी के मुँह से तीन अशुद्ध आत्माओं को मेंडकों  
 के रूप में निकलते देखा । ये चिन्ह दिखानेवाले दुष्टात्मा १४

(२) य० । पवित्रस्थान ।



हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिये जाते हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान् परमेश्वर के उस बड़े  
 १५ दिन की लड़ाई के लिये हकट्टे करें । देख मैं चोर की नाई  
 आता हूँ धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने  
 वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग  
 १६ उस का नंगापन न देखें । और उन्होंने ने उन्हें उस जगह  
 हकट्टे किया जो इज्रायेल में हर-मगिदेन कहलाता है ॥  
 १७ और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उडेल दिया  
 और मन्दिर<sup>२</sup> के सिंहासन से यह ऊंचा शब्द हुआ कि  
 १८ हो चुका । फिर बिजलियाँ और शब्द और गर्जन हुए  
 और एक ऐसा बड़ा भूईंडोल आया कि जब से मनुष्य की  
 उत्पत्ति पृथिवी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूईंडोल न  
 १९ हुआ था । और उस बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए  
 और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़ी बाबिल का  
 स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोध की  
 २० जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए । और हर एक टापू  
 अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा ।  
 २१ और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले  
 गिरे और इसलिये कि यह विपत बहुत ही भारी थी  
 लोगों ने ओलों की विपत के कारण परमेश्वर की निन्दा  
 की ॥

१७. और जिन सात स्वर्गदूतों के पास  
 वे सात कटोरे थे उन में से

एक ने आकर मुझ से यह कहा कि इधर आ मैं तुम्हें  
 उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊँ जो बहुत से पानियों पर  
 २ बैठी है । जिस के साथ पृथिवी के राजाओं ने व्यभिचार  
 किया और पृथिवी के रहनेवाले उस के व्यभिचार की  
 ३ मदिरा से मतवाले हो गए थे । सो वह मुझे आत्मा में  
 जंगल को ले गया और मैं ने किरिमिज़ी रंग के पशु पर  
 जो निन्दा के नामों से छपा हुआ और जिस के सात सिर  
 ४ और दस सींग थे एक स्त्री को बैठा हुआ देखा । यह स्त्री  
 बैजनी और किरिमिज़ी कपड़े पहिने थी और सोने और  
 बहुमोल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उस  
 के हाथ में एक सोने का कटोरा था जो विनित वस्तुओं से  
 और उस के व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ  
 ५ था । और उस के माथे पर यह नाम लिखा था भेद  
 बड़ी बाबिल पृथिवी की वेश्याओं और विनित वस्तुओं की  
 ६ माता । और मैं ने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू  
 और यीशु के गवाहों के लोहू पीने से मतवाली देखा  
 ७ और उसे देखकर मैं चकित हो गया । उस स्वर्गदूत ने

(२) सू० । पवित्रस्थान ।

मुझ से कहा तू क्यों चकित हुआ है । मैं इस स्त्री और  
 उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिस के सात  
 सिर और दस सींग हैं तुम्हें भेद बताता हूँ । जो पशु तू  
 ने देखा है यह पहिले तो था पर अब नहीं है और अथाह  
 कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथिवी के रहने-  
 वाले जिन के नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन  
 की पुस्तक में लिखे नहीं गये इस पशु की यह दशा देख-  
 कर कि पहिले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा  
 अचंभा करेंगे । शानी की बुद्धि इसी में है वे सातों सिर  
 ९ सात पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है । और वे सात  
 १० राजा भी हैं पांच तो ही चुके हैं और एक अभी है और  
 एक अब तक आया नहीं और जब आएगा तो कुछ समय  
 तक उस का रहना अवश्य है । और जो पशु पहिले था  
 ११ और अब नहीं वह आप आठवां है और उन सातों में से  
 उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा । और जो दस सींग  
 १२ तू ने देखे वे दस राजा हैं जिन्होंने ने अब तक राज्य नहीं  
 पाया पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिये राजाओं  
 का सा अधिकार पाएंगे । ये सब एक मन होंगे और वे  
 १३ अपना अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे ।  
 ये मेम्ने से लड़ेंगे और मेम्ना उन पर जय पाएगा क्योंकि  
 १४ वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है और जो  
 बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उस के साथ हैं  
 वे भी जय पाएंगे । फिर उस ने मुझ से कहा कि जो  
 १५ पानी तू ने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग और  
 भीड़ और जातियाँ और भाषा हैं । और जो दस सींग तू  
 १६ ने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे  
 लाचार और नंगी कर देंगे और उस का मांस खा जाएंगे  
 और उसे आग में जला देंगे । क्योंकि परमेश्वर उन के  
 १७ मन में यह डालेगा कि वे उस की मनसा पूरी करें और  
 जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें तब तक एक  
 मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें । और वह  
 १८ स्त्री जो तू ने देखी वह बड़ा नगर है जो पृथिवी के  
 राजाओं पर राज्य करता है ॥

१८. इस के पीछे मैं ने एक स्वर्गदूत को  
 स्वर्ग से उतरते देखा जिस का  
 बड़ा अधिकार था और पृथिवी उस के तेज से उजाती हो  
 गई । उस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा कि गिर गई  
 २ बड़ी बाबिल गिर गई है और दुष्टात्माओं का निवास और  
 हर एक अशुद्ध आत्मा का अशुद्ध और हर एक अशुद्ध  
 और विनित पत्नी का अशुद्ध हो गया । क्योंकि उस के  
 ३ व्यभिचार के कोप की मदिरा पीकर सब जातियाँ गिर  
 गई हैं और पृथिवी के राजाओं ने उस के साथ व्यभिचार

किया है और पृथिवी के व्यापारी उस के सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान् हुए हैं ॥

- ४ फिर मैं ने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगो उस में से निकल आओ कि तुम उस के पापों में आगी न हो और उस की विपत्तों में से कोई तुम पर न आ पड़े । क्योंकि उस के पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं
- ५ और उस के अधर्म परमेश्वर के स्मरण आए हैं । जैसा उस ने तुम्हें दिया है वैसा ही उस को भर दो और उस के कामों के अनुसार उसे दूना बदला दो जिस कटोरे में उस ने भर दिया उसी में उस के लिये दूना भर दो ।
- ७ जितनी उस ने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उस को पीड़ा और शोक दो क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूँ विषवा नहीं और शोक में कभी न पड़ूंगी । इस कारण एक ही दिन में उस की विपत्तें आ पड़ेंगी अर्थात् मृत्यु और शोक और अकाल और वह आग में भस्म कर दी जाएगी क्योंकि
- ९ उस का न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान् है । और पृथिवी के राजा जिन्होंने उस के साथ व्यभिचार और सुख विलास किया जब उस के जलने का धूआँ देखेंगे तो उस के लिये रोएंगे और छाती पीटेंगे । और उस की पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े हुए कहेंगे हे बड़े नगर बाबिल हे दृढ़ नगर हाय हाय घड़ी ही भर में तुम्हें दंड मिल गया है । और पृथिवी के व्यापारी उस के लिये रोएंगे और कलपेंगे क्योंकि अब कोई उन का माल मोल न लेगा ।
- १२ अर्थात् सोना चांदी रत्न मोती और मलमल और बैजनी और रेशमी और क्रिमिजी कपड़े और हर प्रकार का सुगन्धित काठ और हाथीदान्त की हर प्रकार की वस्तुएँ और बहुमोल काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भाँति के पात्र । और दारचीनी मसाले धूप सुगन्ध तेल लोबान मदिरा तेल मैदा गेहूँ गाय बैल भेड़ बकरियाँ घोड़े रथ और दास और मनुष्यों के प्राण । और तेरे चाहे हुए फल तेरे पास से जाते रहे और अब स्वादित और भङ्गीली वस्तु तेरे पास से नाश हुई हैं और वे
- १५ फिर कभी न मिलेंगी । इन वस्तुओं के व्यापारी जो उस द्वारा धनवान् हो गए थे उस की पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे । हाय हाय यह बड़ा नगर जो मलमल और बैजनी और क्रिमिजी कपड़े पहिने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उस का ऐसा भारी धन नाश हो गया । और हर एक मांभी और जलयात्री और मज्जाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए । और उस के जलने का धूआँ देखते हुए पुकार

कर कहेंगे कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है । और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए १९ और कलपते हुए चिल्ला चिल्लाकर कहेंगे कि हाय हाय यह बड़ा नगर जिस की संपत्त के द्वारा समुद्र में के सब जहाज़वाले धनी हो गए घड़ी ही भर में उजड़ गया है । हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगो और प्रेरितो और नबियो २० उस पर आनन्द करो क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उस से तुम्हारा पलटा लिया है ॥

फिर एक शक्तिमान् स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के २१ पाट सा एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबिल ऐमे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी न मिलेगा । और बीणा २२ बजानेवालों और बजानियों और बंसी बजानेवालों और तुरही फूंकनेवालों का शब्द फिर कभी तुम्हें सुनाई न देगा और किसी उद्यम का कोई कारीगर फिर कभी तुम्हें न मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुम्हें सुनाई न देगा । और दिया का उजाला फिर २३ कभी तुम्हें न चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुम्हें सुनाई न देगा क्योंकि तेरे व्यापारी पृथिवी के प्रधान थे इसलिये कि तेरे टोने से सब जातियाँ भरमाई गईं । और नबियों और पवित्र २४ लोगो और पृथिवी पर सब घात किये हुआँ का लोहू उसी में पाया गया ॥

१९. इस के पीछे मैं ने स्वर्ग में मानो

बड़ी भीड़ का बड़ा शब्द सुना कि हल्लूयाह उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है । इसलिये कि उस के फैसले सब २ और ठीक हैं क्योंकि उस ने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथिवी को भ्रष्ट करती थी फैसला किया और उस से अपने दासों के लोहू का पलटा लिया है । और वे दूसरी बार हल्लूयाह बोले और उस के जलने ३ का धूआँ युगानुयुग उठना रहेगा । और चौबीसों प्राचीनों ४ और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को प्रणाम किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हल्लूयाह । और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे ५ परमेश्वर से सब डरनेवाले दासो क्या छोटे क्या बड़े तुम सब उस की स्तुति करो । फिर मैं ने बड़ी भीड़ का सा ६ और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा महान् शब्द सुना कि हल्लूयाह इसलिये कि प्रभु हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान् ने राज्य लिया है । आओ हम ७ आनन्दित और मगन हों और उस की महिमा करें क्योंकि मेम्ने का ब्याह आ पहुँचा और उस की पत्नी ने अपने

- ८ आप को तैयार कर लिया । और उस को शुद्ध और उजली मलमल पहिने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है ।
- ९ और उस ने मुझ से कहा यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेन्ने के न्याह के भोज में बुलाए गए हैं फिर उस ने मुझ
- १० से कहा ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं । और मैं उस को प्रणाम करने के लिये उस के पांवों पर गिरा उस ने मुझ से कहा देख ऐसा मत कर मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही के लिये बने रहे हैं परमेश्वर ही को प्रणाम कर न्योकि यीशु की गवाही नबुवत का आत्मा है ॥
- ११ फिर मैं ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के
- १२ साथ न्याय और लड़ाई करता है । उस की आंखें आग की ज्वाला हैं और उस के सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उस का एक नाम लिखा है जिसे उस को छोड़
- १३ और कोई नहीं जानता । और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहिने है और उस का नाम परमेश्वर का वचन
- १४ है । और स्वर्ग में की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और उजली और शुद्ध मलमल पहिने हुए उस के पीछे पीछे
- १५ हैं । और जाति जाति के मारने के लिये उस के मंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का दंड लिए उन पर राज्य करेगा और वह सर्वशक्तिमान् परमेश्वर के क्रोध की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में
- १६ रौदन करता है । और उस के वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ॥
- १७ फिर मैं ने एक स्वर्गदूत को सरज पर खड़े हुए देखा और उस ने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़नेवाले सब पक्षियों से कहा आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिये इकट्ठे हो जाओ ।
- १८ जिस से तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान् पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उन के सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ ॥
- १९ फिर मैं ने उस पशु और पृथिवी के राजाओं और उन की सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उस की
- २० सेना से लड़ने के लिये इकट्ठे देखा । और वह पशु और उस के साथ वह भूटा नबी पकड़ा गया जिस ने उस के सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिन के द्वारा उस ने उन को भरमाया जिन्होंने उस पशु की छाप ली और जो उस की मूरत की पूजा करते थे ये दानों जीते जी उस

भाग की भील में जो गन्धक से जलती है डाले गए । और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उस के मंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उन के मांस से तृप्त हो गये ॥

२०. फिर मैं ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिस के हाथ में

अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी । और उस ने उस अजगर अर्थात् पुराने सांप को जो हबलीस और शैतान है पकड़ के हजार बरस के लिये बांधा । और उसे अथाह कुंड में डालकर बन्द किया और उस पर छाप कर दी कि वह हजार बरस के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए फिर इस के पीछे अवश्य है कि थोड़ी देर के लिये खोला जाए ॥

फिर मैं ने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उन को न्याय करने का अधिकार दिया गया और उन के प्राणों को भी देखा जिन के सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गये थे और जिन्होंने ने न उस पशु की और न उस की मूरत की पूजा की थी और न उस की छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी वे जीकर मसीह के साथ हजार बरस राज्य करते रहे । और जब तक ये हजार बरस पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जीए यह तो पहिला जी उठना है । धन्य और पवित्र वह है जो इस पहिले पुनरुत्थान का भागी है ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ अधिकार नहीं पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उस के साथ हजार बरस तक राज्य करेंगे ॥

और जब हजार बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा । और उन जातियों को जो पृथिवी के चारों ओर होंगी अर्थात् याजूज और माजूज को जिन की गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी भरमाकर लड़ाई के लिये इकट्ठे करने को निकलेगा । और वे सारी पृथिवी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी । और उन का भरमाने वाला शैतान आग और गन्धक की उस भील में जिस में वह पशु और भूटा नबी भी होगा डाला जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे ॥

फिर मैं ने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस को जो उस पर बैठा हुआ है देखा जिस के सामने से पृथिवी और आकाश भाग गए और उन के लिये जगह न मिली । फिर मैं ने छोटे बड़े सब मरे हुएों को सिंहासन के

सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात् जीवन की पुस्तक और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उन के कामों के अनुसार मरे १३ हुआ का न्याय किया गया । और समुद्र ने उन मरे हुआ को जो उस में थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुआ को जो उन में थे दे दिया और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उस का न्याय किया गया । १४ और मृत्यु और अधोलोक आग की मील में डाले गये १५ यह आग की मील तो दूसरी मृत्यु है । और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की मील में डाला गया ॥

२१. फिर मैं ने नए आकाश और नई पृथिवी को देखा क्योंकि पहिला आकाश और पहिली पृथिवी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा । फिर मैं ने पवित्र नगर नई यरुशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिये सिंगार किए हो । फिर मैं ने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है वह उन के साथ डेरा करेगा और वे उस के लोग होंगे और परमेश्वर आप उन के साथ रहेगा ४ और उन का परमेश्वर होगा । और वह उन की आंखों से सब आंसू पोछे डालेगा और इस के पोछे मृत्यु न रहेगी और न शोक न बिलाप न पीड़ा रहेगी पहिली बातें ५ जाती रहीं । और जो सिंहासन पर बैठा था उस ने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ । फिर उस ने कहा कि लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं । फिर उस ने मुझ से कहा ये बातें पूरी हो गईं मैं अलफा और ओमिगा आदि और अन्त हूँ मैं प्यासे को ७ जीवन के जल के सोते से सेंटमेंत पिलाऊंगा । जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उस का परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा । पर डरपोकों और अविश्वासियों और बिनौनों और इबनियों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्त्तिपूजकों और सब भूठों का भाग उस मील में मिलेगा जो आग और गन्धक से जलती है । यह दूसरी मृत्यु है ॥ ९ फिर जिन सात स्वर्गदूतों के पास सात पिछली बिपतों से भरे हुए सात कटोरे थे उन में से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा इधर आ मैं तुम्हें १० दुल्हन अर्थात् मेम्ने की पत्नी दिखाऊंगा । और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरुशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से

उतरते दिखाया । परमेश्वर की महिमा उस में थी और ११ उस की ज्योति' बहुत ही बहुमोल पत्थर अर्थात् बिल्लौर सरीखे यशब की नाईं स्वच्छ थी । और उस की शहर- १२ पनाह बड़ी ऊंची थी और उस के बारह फाटक और फाटकों पर बारह स्वर्गदूत थे और उन पर ह्साईलियों के बारह गोत्रों के नाम लिखे थे । पूरब की ओर तीन फाटक १३ उत्तर की ओर तीन फाटक दक्खिन की ओर तीन फाटक और पश्चिम की ओर तीन फाटक थे । और नगर की १४ शहरपनाह की बारह नेवें थीं और उन पर मेम्ने के बारह प्रेरितों के बारह नाम लिखे थे । और जो मेरे साथ बातें १५ कर रहा था उस के पास नगर और उस के फाटकों और उस की शहरपनाह के नापने के लिये एक सोने का गज्र था । और नगर चौखंटा बसा था और उस की लम्बाई १६ चौड़ाई के बराबर थी और उस ने उस गज्र से नगर को नापा तो साढ़े सात सौ कोस का निकला उस की लम्बाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी । और उस ने उस १७ की शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात् स्वर्गदूत के नाप से नापा तो एक सौ चौआलीस हाथ निकली । और उस की १८ शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो । और उस १९ नगर की शहरपनाह की नेवें हर प्रकार के बहुमोल पत्थरों से सवारी हुई थीं पहिली नेव यशब की थी दूसरी नील- २० माणिक की तीसरी लालड़ी की चौथी मरकत की । पांचवीं गोमेदक की छठवीं माणिक्य की सातवीं पीतमणि की आठवीं पेरोज की नवीं पुखराज की दसवीं लहसनिष्ट की एग्यारहवीं धूम्रकान्त की बारहवीं याकूत की । और बारहों २१ फाटक बारह मोतियों के थे एक एक फाटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी । और मैं ने उस में कोई २२ मन्दिर न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान् प्रभु परमेश्वर और मेम्ना उस का मन्दिर हैं । और उस नगर में सुरज २३ और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उस में उजाला हो रहा है और मेम्ना उस का दीपक है । और जाति जाति के लोग उस की ज्योति में २४ चलें फिरेंगे और पृथिवी के राजा अपने अपने तेज का सामान उस में लाएंगे । और उस के फाटक दिन को २५ कभी बन्द न होंगे और रात वहां न होगी । और लोग २६ जाति जाति के तेज और विभव का सामान उस में लाएंगे । और उस में कोई अपवित्र वस्तु या घिनित काम २७ करनेवाला या भूठ का गढ़नेवाला किसी रीति से प्रवेश

न करेगा पर केवल वे लोग जिन के नाम मेम्ने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं ॥

**२२. फिर** उस ने मुझे विज्ञौर की सी भलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई

- २ जो परमेश्वर और मेम्ने के सिंहासन से निकल कर, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी । और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था उस में बारह प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे । और फिर स्नाप न होगा और परमेश्वर और मेम्ने का सिंहासन उस नगर में होगा और उस के दास उस को सेवा करेंगे । और उस का मुंह देखेंगे और उस का नाम उन के माथों पर लिखा हुआ होगा । और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूरज के उजाले का प्रयोजन न होगा क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे ॥
- ६ फिर उस ने मुझ से कहा ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं और प्रभु ने जो नबियों के आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिये भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिन का शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए । देख मैं शीघ्र आनेवाला हूँ धन्य है वह जो इस पुस्तक की नबूवत की बातें मानता है ॥
- ८ मैं वही यहूदा हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था और जब मैं ने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उस के पांवों पर प्रणाम करने को गिरा । और उस ने मुझ से कहा देख ऐसा मत कर क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई नबियों और इस पुस्तक की बातों के माननेवालों का संगी दास हूँ परमेश्वर ही को प्रणाम कर ॥
- १० फिर उस ने मुझ से कहा इस पुस्तक की नबूवत की बातों को बन्द मत कर<sup>१</sup> क्योंकि समय निकट है ।

(१) या । पर स्नाप न दे ।

जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे और जो ११ मलिन है वह मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे । देख मैं शीघ्र आनेवाला हूँ और हर एक के काम के १२ अनुसार बदला देने के लिये प्रतिफल मेरे पास है । मैं अलफा और ओमिगा पहिला और पिछला १३ आदि और अन्त हूँ । धन्य वे हैं जो अपने बख भी लेते १४ हैं क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे । पर कुत्ते और टोन्हें और व्यभिचारी और झूठी और १५ मूर्तिपूजक और हर एक झूठ चाहनेवाला और गढ़नेवाला बाहर रहेगा ॥

मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिये भेजा १६ कि तुम्हारे आगे मण्डलियों के लिये इन बातों की गवाही दे । मैं दाऊद का मूल और वंश और मोर का चमकता हुआ तारा हूँ ॥

और आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ और १७ सुननेवाला भी कहे आ और जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंटमेंत ले ॥

मैं हर एक को जो इस पुस्तक की नबूवत की १८ बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई इन बातों पर कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा । और यदि कोई १९ इस नबूवत की पुस्तक की बातों में से घटाए तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिस की चर्चा इस पुस्तक में है उस का भाग घटा देगा ॥

जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता २० है हां मैं शीघ्र आनेवाला हूँ । आमीन । हे प्रभु यीशु आ ॥

प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों पर रहे । २१ आमीन ॥



वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं०

२४७.५ घण्टा

लेखक

शीर्षक

पद्मशास्त्र प्रथा पुराना भा. ११

खण्ड

क्रम संख्या

६४३